

शान्तकुटी-वैदिकग्रन्थमाला

तस्यां च शास्त्रादिविरुदालङ्कृतेन

किञ्चिन्ननुक्तम्

कर्मिष्ठसंघटकानां लम्बितप्रौढिविशेषाणामुपविज्ञानां विदुषां सहयोगतश्च
परामर्शकसंघटकानां नानादेशीयानामुपविज्ञानां
विपश्चिदपश्चिमानां सन्निर्देशतश्च

संपादितायाम् अयम्

१२शो ग्रन्थः

होशियापुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१७ वि०

THE SHANTAKUTI VEDIC SERIES

Edited

*with the co-operation of a Staff Organisation of about thirty
specially Trained Scholars and under the general
guidance of an international
Advisory Board*

By

VISHVA BANDHU, *Shastri, M. A., M.O.L., O d'A. Fr.*

VOLUME XII

HOSHIARPUR

Published by the V. V. R. Institute

1961

A VEDIC WORD-CONCORDANCE

Being a **universal vocabulary register** of about **500** Vedic works,
with complete textual reference and critical commentary bearing on
phonology, accent, etymo-morphology, grammar, metre,
text-criticism, and ur-Aryan philology

In five Volumes, sub-divided into sixteen Parts

By

VISHVA BANDHU

Director, the Vishveshvaranand Vedic Research Institute and the
D. A.-V. College Research Department, formerly,
Principal, Dayananda Brahma Mahavidyalaya.

In collaboration with

BHIM DEV, RAMANAND, AMAR NATH & PITAMBAR DATT
AND [MANY OTHER SCHOLARS.

Vol. IV in Four Parts

(Vedāᅅga-sūtras)

PART IV

य-ह, परिशिष्टम्

Pages I-IV and 2117--2892

HOSHIARPUR

PUBLISHED BY THE V. V. R. INSTITUTE

वैदिक-पदानुक्रम-कोषः

स च

संहिताब्राह्मणोपनिषद्देवाङ्गसूत्रवर्गीयोपपञ्चशत[५००]वैदिकग्रन्थस्थ-सकलपदजात-संग्रहस्वरूपः

प्रतिपदप्रतिपुक्त-श्रुतिस्थलसर्वस्व-निर्देशैः समवेतश्च यथासंगत-तत्तत्प्रागवर्गलक्षण-

विचारसमन्वितटिप्पणैः सनाथितश्च

संभूय षोडशखण्डात्मकैः पञ्चभिर्विभागैर्व्यूढश्च

सन्

दयानन्दब्राह्मणमहाविद्यालयीयाचार्यपदप्रतिष्ठितपूर्वेण, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानस्य

च दयानन्दमहाविद्यालयीयाऽनुसंधानविभागस्य च संचालकेन

सता

किशुकन्धुक्का

भीमदेव-रामानन्द-अमरनाथ-पीताम्बरदत्त-

प्रमुखानां बहूनां शास्त्रिणां

सायुष्य-समुपलम्भेन

संपादितः

अयं च तत्र

(वैदिकिकस्य)

चतुःखण्डात्मकस्य षष्ठस्य विभागस्य

षष्ठः खण्डः

ब-ह, परिशिष्टम्

पृष्ठानि, १-१४ च २११०-२११२ च

होशियारपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१७ वि०

(All Rights Reserved)

Printed and Published by Dev Datta Shastri,
at the V. V. R. I. Press, Hoshiarpur,
First edition, first issue, 1961. Quality I. 375 Copies
Price Rs. 40.-.

(अधिकार-सर्वस्वं सुरक्षितम्)

होशियारपुरे वि. वै. शो. सं. मुद्रागृहे

देवदत्तशास्त्रिणा मुद्रापितः प्रकाशितम् ।

प्रथमं संस्करणम्, प्रथमः प्रकाशः, १०१७ वि.। १म रोटीः, ३७५ प्रतिष्ठितयः ।

मूल्यम् ४०) रु. ।



Prepared and published under the patronage of the Governments of the Indian Union and the States of Panjab, Jammu-Kashmir, Himachal, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Orissa, Madhya Pradesh, Bombay, Mysore, Kerala, Rajasthan and Madras, the former Princely States of Hyderabad, Travancore, Baroda, Indore, Kolhapur, Sangli, Patiala, Nabha, Jodhpur, Bikaner, Idar, Alwar, Udaipur, Shahpura, Sirmur and Keonthal, the former Princely Estates of Awagarh and Vijayanagaram, the Universities of Panjab, Poona, Andhra and Calcutta and the Trusts and Charities of Swami Vishveshvaranand, Shri Vishva Bandhu, Shri Moolchand Kharaitiram, D. B. Krishna Kishore, Shri Dhani Ram Bhalla, Shri Jai Dayal Dalmia, R. B. Jodha Mal Kuthiala and other donors.

अथ

वैदिक-पदानुक्रम-कोषे

वैदाङ्गिके चतुर्थे विभागे

चतुर्थः खण्डः

व

१८^०-नाति १,४,१२
 २३^०-व अघञ् २,२, गुप्ता १,८१,
 वम् श्रुत ७, २, १०, १, २,
 यासि २,५१
 व-कम्प-लोप- -व उरू ८, १०
 व-कार- -र वा १०, १, १७,
 श्रया, -रम् उरू ७, ४, ५,
 -रम् यासि २, ५७, गुप्ता,
 -रात् कया १७, ५२, -रे
 श्रया ९, ११, गुप्ता, -रेण शुभ्रा
 ७,४
 वकार पूर्व- -र्त्तौ १७, २
 वकार प्रतिषेध- -व पावा ६,
 ४,६६
 वकार(र आ)दि- -दि श्रया
 २,२५, -दि निस २, १०
 १०, -शौ शौच ७,१८
 व पर- -रे श्रुत ३,२,५
 व म ड- -दा भासि ७,७
 व लोपा(व-अ)प्रसिद्धि- द्वि पावा
 ६,६५
 व-त्परित- -त् नासि २, ३, ५,
 -त्तौ यासि २,३३
 र्वश-^० पावा ५,१,५०, ६,३, १११,
 -^०श्रुत अघञ् २,१५, ५, आद्य
 २,१, २ काद्य ११, २, भाद्य,
 माद्य २,११, १४^०, -श्रुत कौस्त
 १३५ १, वा ५, ५७, -श्रुत
 शौचौ १७, १, १७, १०, ६,
 आवधौ, -शा माद्य २, ११, १५,
 -शाद् माधौ १, ५, १, १३,

-शान् आवधौ ११,८,१, १०,
 ८१, वीथी, -शानाम् वीथी
 २५,५ १०, -शौ वीथी ६,१
 १८×४, -शौ आवधौ ११, ७,
 १, वीथी ६, २५: १७, वैथी
 यासिक- वा ५,१,५०
 वदा-गुल्म-भि(म>)भा- -भा अघ
 ५८^०,४, ६, -भा अघ ५८^०,
 २,६
 वदा-गुल्म-प्रतीकाश- -शा अघ
 ५२,४,४.
 वस-गुल्म-स रश्मि- -श्मय अघ
 ५२,४,४
 वस भार-> वाशभारिक- वा ५,
 १,५०
 वस मध्यम- मयो गोप ३, १,
 ३०
 वस वश- -ना आसि २,६, ७:
 ३६.
 वसा(श ष)म- मम् वीथ ३६,
 ६, -मे कौस्त ७,६
 वसा(न ष) ल- स्ते माधौ २, २,
 २,२१
 वसा(रा ष)त- रेणु आद्य २
 ८,१३.
 व(श>)शा व(र>)तौ- वा ६,
 १,११९
 र्वश-^० पावा ७,४,४, -श्रुत वैप
 ५७६, -शान् वीथ १३५ ९
 -शौ वीथि १४, १, वीथ २
 ६३
 वस-वास्त्रि- -त्रम् वैप ३,७, १२
 वस अ- -लै वृदे ६,३९,५८

वस श्रु- -शान् वीथ १३५ ९^०
 वस-विदर्शन- -त्रम् वैप ७, ८
 १३
 वस वय- -स्तेभ्य वैप ३,९, ६
 वसो(श ङ)ह्रीक्षम-> १^०विक्र-
 -कम् वाद्य १२,२
 वश्य- वा ७,३,५४, -श्रुता वापव
 १, ७, १२, द्विप १, २, ६९,
 -श्रुता वैप ७,८,६, वृदे ६,
 १४२, चव्यू ७ ३६, -श्रुते वा
 ७, १, १६३, -श्रुतेन वा २, १,
 १९
 र्वश- -श्रुता ७,३
 र्वश्रु-^० ग वीथ १६, २०, श्रुता
 ३,४,१
 र्वश्रु-^० श्रुता ५,१८^०
 र्वश्रु-^० पावा म्वा आत्म इडौ
 र्वश्रु-^० > वाकायन- -ना वीथी
 ३ ८
 र्वश्रु-^० लम् आवधौ १, ६, ८५,
 -लै वापुथी ३, ८१ ३
 र्वश्रु-^० पाउगो २, ३ ११०
 र्वश्रु-^० य- -वकुम् प्रम् र्वश्रु-^०
 र्वश्रु-^० वा २, १३, पाग ५, १,
 १२३, ७, ३, ५३ -क अघ ७,
 ५६^०, -का अघ २३, २, ५×२,
 -का आधौ १७, १, १६^०,
 -शान् शय ७७५ -शौ आवधु
 २१, ६, द्विप ६, ६०, १५,
 वाप- वा ५, १, १२३
 वक्र-ता- वा ५, १, १२३
 वक्र-गुल्म- -गम् वीथ २, ५,
 २१^०

d) ग-वर्ष- इत्यस्मात्-त्याजयव-। b) = वर्षे विरोध-। c) वस। d) = १वैपु। वैप १ श्र।

e) 'या इति पाठ' यनि शोष (तु उप शौ ३, १२, ६, अघञ् प्रम्)। f) वस > वृत् > वस। उप स
 = समान-। g) = वृत्। श्यु १। h) पाठ' इ सस्त्वृ ङि। यनि द्विपि (नेतु देवराज नाप दति,
 आदित्यदर्शन 'क्षमम्' इति पक्षे च 'क [लिप] > -कम्' इति च)। i) वैप १ श्र। j) = १वप।
 k) = वल्कल-। l) पृ १०४२ ० ८। m) विप > नाप (दृष्टम्)। n) = गणेश (परा)।

यज-व- वा ५, १, ११३.
यज-व-व- स हिथी १२, ८, ३,
आपु १५, २, १८, १, बीछ
१००१, रिछ ५-२, २
वका(ठ-भ)क- ना बीछ २० २
वका(ठ-भ)लिखि(त>)का-
-नामाव काथी १७, ७, २४.
वकिन्- नम् वेण १, १ ५.
वकिन्- वा ५, १, १२३.
चक्रपाल- (> वाकालेप- वा)
पाग ७, ३, ८०.
चंद्रश्या- आवाव् द्राथी ११, २, ३,
लाथी ७, २, २.
चक्र वविशीर्षी- न्नाथी द्राथी
११, २, २, ३, लाथी ७, २, १, २.
चक्र(वधा) पावा. भ्वा. पर रोपे,
वप्रति म् ७८, २०५
चक्रक्षिप- निव ३, ३, मा ३,
१३७
चक्र- गानाम् आपथी १३,
१५, ११९, -गे वेण ५, ४ : ३२
चक्र- अ वा ११, २०५.
चक्र- अ आपथी १७, ८, २१
चक्र- पाठ ३, ६२
चक्रश्या- -मासु कौट ३६, २६
चक्रश्या- -पा ३३ व ७८, ७६,
निव १, १३
चक्रश्याजयन्- हिथी १५, ७, १६
चक्रश्या- -न्या का ५, ३, ८
चक्र- पाठ ७, २२०, पाग ५, ४,

३८^म, -अ थाथी ३, १, १५,
१२, ९, ३, लाथी; आथी १७,
२९, ३५^१, वा ७, १६^१ ५७,
५, ५, -अस. आपथी ७,
२४, २, बीथी, -अस^२
आथी १७, २९, ३, हिथी १५,
७, १६.
चक्र स्थिते(त-इ) विद्रा-व् इम^२-
-वम औथी १
चक्रश्या- -अ श्राव ३, १.
चक्रवत्, चक्रवत्- वच ३८, १, १.
चक्र पावा भ्वा पर गतो.
चक्र- वच ३८
चक्र पावा भ्वा पर. वीटिले,
गती व.
चक्र- अथी १७, २२,
१, हिथी १२, ६, २६.
चक्र- पाठ ७, ६६, -अथ
आथी ३, २, १, १०, ८, ७, लाथी
५, १७, ६, बीछ ९, ४, १३,
-अथी १६, ३, २४,
भी ९, ४, ७, १४.
चक्र- पाठ हिथी ९, ४, ३२९,
-औ केथी १६, १० : १६९,
निव ९६, १२.
चक्र- अथी ३, ५,
७ १० बीछ १, ६ : ५, ३, ३,
१२, हिथि ६ ५
चक्र पावा भ्वा पर गतो
चक्र- > अ भ्वाथी ५, ७, २,

४, ६८.
चक्र पावा. भ्वा. पर. गती.
चक्र- पाग ७, २, १२८, -आव् वीथ
१, १, ३०.
चक्र(ठ-भ)का(ठ-भ)दि- -दिपु व ५
५१, ४, ४.
चक्र- पा ७, २, १२८.
चक्र पावा. भ्वा. आस. गवाक्षे.
चक्र पावा. भ्वा. पर., पुता उम.
परिभाषे, वकि नाथी १, ५,
४^१; वकि व ३८, १, १.
अथे काथी १, ८, ३; उवाच
लाथी १५, १८, १^१ x, बीथी,
कचु. लाथी १५, २२, १, बीथी
१८, ४५ : १७, पापुथी, कचिरे
वृदे ७, १०८, उचु: लाथी १७,
२९, १ x x, बीथी, उवच्य रूप
१, १०५, कचे वृदे ७, ६६;
वदपति धुथी ३, ४६ : ६; छ,
वदपति लाथी १, ७, ४, ११५,
वदवे औथी ५, कासिपु ३, १०,
४ २, वप, वदपति वीथी १७,
२० : २, वापुथी, मैष ७^१,
वदपति: आथी १, १, १ x x,
बीथी, वदपति लाथी ३ ५ :
५, वा ५, ७ x x, वदपति
वापुथी २, १३ : ४.
वच. वीथी ५, १, १०^१, १६,
२९, ८, वापुथी, वचि वा
५, ७^१, वचि आथी ५, ७, २,

a) वस । b) = वीणा-विन्द- । c) सधति कनि केचित् । d) वा निरासे सति । e) वेण वृ १ ।
f) = शरीराववप विभेय । g) सप वक्षणात् <> वक्षणात् <> वक्षणी इति पाठे । h) वेण व, २, २४
द । i) पाठे वेण व वक्षु क ८, १३, ९, टि ३ । j) अर्थे २ = अथ वधि- इति रजदत्ता, = कटिप्रदेश इति
केचन, = अथ- इति ०, = पाठ- इति अथ । k) = नदी- । l) पाठ १ । मया, काठ ३५, १४ आपुथी
१७, २९, ३ वक्ष एतुवन् इति, ली १, ४९, २ अथ वक्षुवन् इति च पाठे । m) वृ १०४३ ता ३ ।
n) पाठे वेण व वक्षणा काठ ३५, १४ टि ३ । o) निव । सत > वर > इत् । p) = सत-
सवि- । q) अथ । r) = देश विदेश । s) वा २, १३, ३, १३, १२, १३ वा २, ४, ५३, ३, १, ५३, ६, १, १५,
७, ४, ३० पावा १, २, २८, ३, १, ८६ पराम् ३ । t) वक्षन् इति पाठ, १ वनि वीथ ।

शाश्री ७,६,३, शवोचत् शाश्री
 १५, १९, १^१, २४, १, निद,
 पुंमदोष आश्री १०,१,४^०,
 शौश्री, शवोचम् आश्री ३,
 ८, ११, शवोचाम शौश्री २४,
 १ ३, ६, ९, ४ ४, निद,
 वोचे पाश्री १३, ४, १९१,
 वोषेमा श्रमा ८, ३२१,
 पुंवोचनहि श्रमा ८, ४७, शैशि
 ५६
 उच्यते आश्री १९ १५, ६१,
 शौश्री, उच्यते वा ४, १९^२×,
 उच्यन्ते द्विशी १, १, ३३,
 आश्रिय, उच्यताम् आश्रि ४,७,
 ३०१, शौशि २, ९ २०, शौशि,
 पुंवच्यस्व^० शौश्री २२, १५, १^१,
 उच्यते वृदे २, ८८, मोसु ३, ९
 वक्ष्यते शैश्रीमा १४२, अश्र,
 वक्ष्यन्ते अश्र २६, ४, ४, शौशि
 ८, विद्वेषत^० निदु ३, ८ २१
 पुंमवाचि शौश्री ७, ९, ६, १०,
 १५, ८ १६, ३×, श्रमा २ ४४
 वाचयति आश्री ११, ७, शौश्री
 १, १५, १३, ८, १३, ९, शौश्री,
 वाचयन्ति आश्री ४, ६ ३, शौश्री
 १६, २ ८, श्रमा १, ६, ४^१,
 वाचयेत् आश्रि १, ८, १४×,
 वाचयेत् आश्री १, ११, १×,
 शौश्री, वृताश्री २, १५^१
 वाचयिष्ये शौश्रि ४, ४, १३ शौशि
 २, ५, ४
 वाच्यताम् शौशि २, ५ ५
 विवाचयिष्येत् शौश्री १, ७, २, ३८
 विवक्षेत् श्रमा १४ ६७
 उक्त, का- पाप २, १, ५९, -क

आश्री २, १९, १५×, शौश्री,
 वैश्री २०, १४ ४^१, -कम्
 आश्री १, ९ ४×, शौश्री,
 वाश्रिय ३, ८, १ ३१^०, पावा
 १, १, ४, १२×, -कवा शैश्री
 १४ २७, शैश्रीका १४७, वश्र
 ३, ४, ३, -कयो आश्री १२, ९,
 १९, -कवश्य शौश्री १४ ५ ३६,
 -का शौश्री २, १८, १७, ६, १४,
 २, शौश्री, आपथ २, २, ५^१, -का
 आश्री १ ६, १, ३, ७, १, ७, १,
 २, ५, २३, ८ ३, २९, आश्री,
 वृदे ६, १३६^०, -कान् श्रिय ५
 ७३, -कान् शैश्री २, १०,
 लाश्री ७, ६, १०, -कानि आश्री
 २, २, १, आपथी १९, १७, ७,
 शौश्री, -कामयान् लाश्री ७, ५,
 २०, -काम् वाश्री १, १, ७, ७, २,
 शैश्री १४ ५ १८, अश्र १, ५०,
 १०, -कामम् शौश्री १५, २२
 १^१, काश्री -कान्तु अश्रि १ २२,
 -के आश्री २, १, २१×, शौश्री,
 -केषु आश्रिय ३, ३, १ २२,
 वृदे ४, १९, -कौ शौश्री ६, ८,
 ५ १८, २३, ४, शौश्री
 उक्त रूपि- श्रि अश्र २ ३२
 उक्त-काम-त्व- त्वात् शौश्रि २,
 २, २९
 उक्त-माल-दीक्षा^० -क्षा लाश्री
 १०, ५, १०
 उक्त क्रिया- याम् अश्र २,
 ३२
 उक्त-त्व- -वात् पावा १, २,
 ६४^१, २, २, २१,
 उक्त-द्वेष(त>)ता^१- ता श्रमा

२, ७, ९८
 उक्त-द्वेषत^१- तानि श्रमा २, १,
 १३
 उक्त पद^१- -द. माश्रि १२, ७
 उक्त-वशिषिण- -शानाम् अश्र
 १८^१, २०, १
 उक्त-वाद^१- -दम् श्रि ३, ७
 उक्त-प्रकाश- -रेण काश्रि ४५
 १४
 उक्त-प्रवृत्ति^१- -कय. आश्री ९,
 १, १.
 उक्त-प्रवृत्तन- -कम् अश्रि १८^१,
 १३, २
 उक्त-म(न>)न्त्रा^१- -न्त्रा
 वृदे ८, १२६, -त्रे वृदे ८, १२५
 उक्त(क-क)वि- वि श्रमा ३, ४
 उक्त-उक्षण^१- -गाम् शौश्री १, ४-
 १३, -गैल आश्रिय १, ७, ३ २
 उक्त-कम् वैश्री २१, ४ ८
 उक्त-कामेम् श्रमा ८, ३५
 उक्त-मत्त- -कम् वैश्री १, ४ ४
 उक्त-सत्त्वा- -त्त्वाम् वैश्री १२,
 १९ ३
 उक्त-समैय^१- -य शौश्री २५,
 १८ १४.
 उक्त-हीन- -नेषु वैश्री २०, २४,
 १०
 उक्त-हेतु-त्व- -त्वात् शौश्रि २,
 ३, २७, ४, ४, ७
 उक्त(च-आ)पार^१- -र. वैश्रि ३,
 १२, ८
 उक्त(क-अ)मुक्त- -कम् अश्र
 १ ४, -कयम् अश्रि १ १
 उक्त(क-अ)न्यय^१- -न्यानि
 निदु ६ २ २

a) वैश्रि १३ । b) पाठ ३ । वक्ष्यते, वक्ष्यते इति मूको । c) पाठे वैश्रि २, २३१२ ० द । d)
 पाठ १ कम् इति शेष (तु वस्तुं टि) । e) उक्त कि इति पाठ २ ननि शेष (तु शौशि १, १५ १०)
 f) पाठे वृ १४२३ ६ द । g) श्रैण श्रियतर्ष । h) वस > कम् । i) क्व ।

उक्ता (उ वा) वलेप्रती- नीम्
 कौत् ३२, १२, ४७, ५४
 उक्ता (क-म) रिमार्- नात्
 मोत् १०, ५ ११
 उक्तवत्- वास्तु रैत् १, ७ १३,
 -वात् २२२, १, १६, वृदे २, ५८.
 उक्ति- क्तिम् कौपीया ११५, अ
 ७०, ११, १४, -के हिधी १३३,
 ५, ४
 उक्ताया आधी १, २, २०xx, शांथी,
 उक्तायाऽउक्ताया आधी १, ५, १७.
 उक्तवत्- पाठ २, ७, पाग ४ २,
 ६०^b, -कथम् नैआधी ५, ९,
 २६xx, १४, २६^c, ८, ११,
 ४^d, शांथी, नैताधी २२, ८^e,
 या ६ ४, -कथम्-कथम् वीथी
 १४, १०२२, २३, ५:२४,
 -कथम्-कथम् २ ५^f, -नैआधी
 आधी ५, ९, १, या १२, ३४,
 -कथम् आधी ८, ७, १३^g, निम्
 ५, ७ ३^h, -कथानाम् वीथी
 १४, २, २४, शांथी ८ १, ८ⁱ,
 छम् १, ५ २६, निम् ४, ५
 ८^jxx, -कथानि शांथी १२,
 ३, ४xx, आधी, छम् १, ५
 ४^k, निम्, ३ ३ २७^l,
 -कथम् वाधुधी ४, ८१
 २६, -कथम् आधी ६, १, १^m,
 शांथी, -नैआधी कथे वीथी १३,
 ७ ४, शांथी २, ११, ८, २९,
 -कथम् आधी ८, ११, ४ⁿ, शांथी
 १० १ १०^o, वीथी, -नैआधी

शांथी ७, १०, ११, वीथी,
 -कथम् आधी ५, ३, ५, शांथी
 २, ७, ४, छम्, -कथम् आधी
 ५, १०, २४^p, शांथी, -कथे
 आधी ८, ६, १२, शांथी,
 कौन्तिक, पा^q- पा ४, २,
 ६०, -कथम् निम् ३ ४:१२,
 कौन्तिक- पा ४, ३,
 १२९.
 उक्तवत्- उक्तवत्- गान् लाधी
 ८, १, १२.
 उक्तवत्- उक्तवत् निम् ४, ५ ५
 उक्तवत्- उक्तवत् आधी ५,
 १, २६, ७, १, २२, -त्राणि या
 ५, ११
 उक्तवत्- उक्तवत् निम् ३, ३
 २, १२ ४, ७, ४ ५५, ५ ३६,
 ८ १७, -कथम् निम् ४, १३ १८,
 ६, ६ १७, १०, १:२, -नै
 निम् ६, ४ १, ६ २५
 उक्तवत्- उक्तवत् निम् ९,
 ८ २
 उक्तवत्- उक्तवत् शांथी ७,
 ११, ३, १२-१३, २xx, नैताधी
 २१, २, २२ १२, २५, ७, -कथम्
 आधी ७, १४, ८, -कथम्
 शांथी १३, १०, ५, -कथम्
 नैताधी २० १६
 उक्तवत्- उक्तवत् शांथी, या- वात्
 शांथी १४, ३, ८, -वा शांथी १२,
 ३, ५, ४ ५, २, -वा शांथी ११,
 १४, ३^r, १२ ६, १, १३, २४,

१८, -वात् शांथी १२, ६, ३,
 -वात् शांथी ११, १४, २१.
 उक्तवत्- उक्तवत् शांथी ३०, २,
 उक्तवत्- उक्तवत् नैताधी ३३, १, २२,
 उक्तवत्- उक्तवत् नैताधी ७, ९,
 ६: १०, १५, १६, २५, २०,
 ११xx,
 उक्तवत्- उक्तवत्- वा निम् ४,
 ५-९.
 उक्तवत्- उक्तवत्- पावा ३, २, ७१
 उक्तवत्- उक्तवत्- वा ३, २, ७१,
 -नैआधी शांथी ७, ९, ७,
 शांथी, -नैआधी या १४, १०,
 शांथी ९, ३७, गुवा ३, १२३.
 उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्
 ८-३१,
 उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्
 निम् ७, ५-७, ७ ३६.
 उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्
 २०, -वात् नैताधी २१, ६
 उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्
 २:९.
 उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्
 उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्
 ३२, ११, -वा नैताधी २७,
 १५, ३१ २०, ३३, १८
 उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्
 ४, ११ ११, -वात् निम् ७ ८ ९
 उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्- उक्तवत्
 २ ६^s, -कथम् वीथी १५,
 २ ६^t, -कथम् वीथी १५, ३७
 १, १५, ३८ ७

a) वैष १३ । b) = सप्त विशेष- । c) उक्तवत् इति वा । d) वैत्तु वात्तु वात्तु उक्तवत्-
 इति प्राति । e) पाठे तु ११६८ P ३ । f) पाठे उक्तवत् इति ८ (तु सोमादित्ये) । g) उक्तवत्-
 इति प्राति । h) = अत्रिप्रति विशेष- । उक्तवत् इति प्राति । i) कथेषु इति प्राति । j) विप, नाप-
 (उक्तवत्-वात्तवित्) । k) एष = [उक्तवत्तवित्] सोम (तु भाष्यम्, तु च) । l) नाप । m) = उक्तवत्-
 रम्- । n) पाठे उक्तवत् इति शेषे (तु ८) । o) वैष २, ३५ ३ । p) = छन्द-वात्त- । q) वस ।
 r) सप्त आधी १२ ११४ प्रम् उक्तवत्तवित् इति पाठे ।

१ठक्वा(क्य-अ)न्त्-न्ते
 लाथी ८,१,८; निम् ३,३:३१;
 ३५; ३७; ८,४:२२; -न्तेषु
 लाथी ८,१,१५; निम् ६,४:३.
 २ठक्वा(क्य-अ)न्त्-न्तस्य
 छम् १,५:१; ८.
 ण्वत्(क्य)ण्णया-मद्-दः
 तेषा ३,२; -दामि आथी ५,१,
 १; शाथी; -दैः वीथी १२,७:
 १५.
 √ठक्वाय > ण्वत्क्यायु-
 -सुवम् वीथी ७, १८:५; १९:
 ६x; -सुवे वीथी ७,७:१२;
 २६,३१:५; ६.
 उक्थ्य(क्य-ठ)त्तम-न्ते लाथी
 ६,१,२.
 उक्थ्य,क्य्या^०-क्य्याः आथी
 ६,१,३^०; १,३^०५; ११,१^०७,
 ४,१५^०x; शाथी; काथी १०,
 १,२७^०; २८^०; आपथी १४,
 २१, ४^०x; काथीसं २८:
 १६; २१; हिथी १५,
 ५, २६^०; २७^०; १७,३,२४^०;
 वैथ १, १: १०^०; आप ४८,
 ६२^०; गौथ ८, १८^०; निप ३,
 ८^०; -क्य्यम् ण्णआथी ६,३^०;
 १,४^०; ७, ८, ३^०; शाथी; काथी
 ९, ६, २०^०; १४, ८^०; १०, ५,
 २^०, २२, ७, २३^०; आपथी ६,४,

१०^०; १२, १८, २०^०; या ११,
 ३१^०; -क्य्यस्य आपथी १३,
 १६, २^०; १८, ११, ७; १२,
 १; २२, २७, ६^०; १६^०; वीथी;
 -क्य्या निम् ३, १:२०^०; -क्य्याः
 आथी ७, ७, १०; ८, ४, २०;
 ११, ५, ३; ८; शाथी; काथी
 २४, ३, ३^०; २१^०; आपथी २२,
 २०, ७; हिथी १७, ७, १९^०;
 -क्य्यात् काथी १०, १, १३^०;
 २५, १३, १०^०; आपथी १४, २,
 ६; माथी; गीम् १०, ५, ४३;
 -क्य्यात् आथी १०, ५, १०; काथी
 २४, ७, २३^०; आपथी; -क्य्यात्
 वीथी १८, ४७: १९; वैताथी
 ३२, १५; -क्य्यामि आथी ८,
 ४, ४^०; शाथी; -क्य्याय वीथी
 १२, ७: १; हिथी १३, ३, ३;
 ४, १९; -क्य्ये काथी ५, ३,
 ३; शाथी; वैताथी ३५, १६^०;
 आपथी १४, १, २; २२, ७, २६^०;
 १०, ३; ६x; वीथी; हिथी
 १७, २, ४७^०; -क्य्येभ्यः
 शाथी ९, १, १; आपथी
 १२, २८, ११^०; वीथी;
 -क्य्येषु काथी ७, ७, ११;
 ८, २, १; ४, ७; निम् ६, १:
 २४; ८: १८; -क्य्येः माथी
 २, ५, ३, १२; -क्य्यी शाथी
 १४, ७, २; ४२, १९; काथी.

उक्थ्य-क्यमस- -सानाम्
 आपथी १४, २, २.
 उक्थ्य^०-ता- -या लाथी ८,
 १, १६.
 उक्थ्य-नृतीय- -यम्
 आपथी १२, २८, ११.
 उक्थ्य-त्व- -त्वात् निम् ६,
 ८: १; ९, ६: २०.
 उक्थ्य-दर्शन- -न्त् निम्
 ६, ८: १८.
 उक्थ्य-पक्ष^०- -क्षः काथी
 २१, १, ३.
 उक्थ्य-वर्षा^०- -यात्
 आपथी १४, २, ६; वैथी १७, ३:
 १; हिथी ९, ७, २०; -ये आपथी
 १८, ६, ७; हिथी १३, २, २२;
 -वेपु वीथी १६, ५: १८; २९, २:
 ८; -यैः वीथी ८, ८: २३x;
 हिथी ९, ७, २०.
 उक्थ्य-वाच- -त्रम् आपथी
 १२, १, १४; वाठथी ११^०; माथी
 २, ३, १, १५; वैथी; -त्रे माथी २,
 ४, ३, २; १३, २३; -त्रेण आपथी
 १२, २८, ११; वाठथी १४^०;
 माथी २, ४, ३, ९; हिथी ८, ८, ४२.
 उक्थ्य-पूर्व^०- -वैम् काथी
 २३, २, ४.
 उक्थ्य-प्रभृति-संस्था-
 -स्याः वैथी १७, १: १.
 उक्थ्य-लोक- -र्षः गीम् ८,
 ३, २१.

a) वत्. | b) वैव १ द. | c) पामे. वैव १ ठक्वायुवम् टि. द. | d) निव., नाव. | e) = गोम-
 याग-विशेष-। f) = मद्र-विशेष-। g) उक्थ्यः इति आ.।। h) उक्थ्यः इति पाठः ? यनि. घोषः (द्र.
 प्रवरणम्, संरन्त्रे, टि. ?) | i) पारसर् पामे. | j) प्रतारय-नामन्-। k) उक्थ्यम् इति आ.।। l) पाठः ?
 उक्थ्यम् इति घोषः (द्र. श्र. १, १०, ५)। m) = सोम-। n) = मद्र-विशेष-। o) उक्थ्यः इति पाठः ? यनि.
 घोषः (द्र. आपथी २२, २०, ७)। p) = उक्थ्य-। उक्था^० इति आग.। q) उक्थ्ये इति C.। r) उक्थ्ये
 इति पाठः ? यनि. घोषः। s) पामे. पृ ३६ B द.। t) वप. = [आकाश-] स्तुन-उत्तर- (द्र. दिथी ९, ५,
 ४३ भाष्यम्)।

उक्थ्य-यत् वाधौ १२, ६, ८.
उक्थ्य-विप्रद^१- -हा आधौ
१३, ८, ११; -हाम्याम् द्विथौ
८, ८, ५२, -हेन्व्य वीधौ २१,
१९, ४, -हेषु वीधौ २१, १९:
३, २५, २३: ५, वैधौ १५, ३७
७, -हे. माधौ २, ४, ३, १, वैधौ
१६, १०: ३, १७, १ ५, २: ५,
द्विधौ ८, ८, ४१, ९, २, ३५, ७,
११.

उक्थ्य-विप्रद^२- -णम्
वाधौ १०, ७, १०.

उक्थ्य विप्रद^३-वचन^३-
-नात् मीस् १०, ५, ४६.

उक्थ्य शेष- -णम् आधौ
१२, २१, ८, -पस्व आधौ १२,
२९, ४.

उक्थ्य संयोग- -नात् मीस्
५, १, ३५

उक्थ्य सं(स्या >)स्व^३-
-श्वम् निस् ९, ६, १८.

उक्थ्य-समित^३- -णम् आधव
२, ७, ४

उक्थ्य-सामन्^३- -म निस्
९, ४ ३१, -मभि. वाधौ ९,
६, ८^३

उक्थ्य स्तोत्रिय- -यान्
वाधौ ११, २, १३, -येषु आधौ
९, ६, ४

उक्थ्य-स्तोत्रिय- -यम् निस्
४, ३ ३६^३, -यान् निस् ४,
११, १८.

उक्थ्य-स्थाडी- -ठी काधौ
९, ३, ११, वीधौ २५, १३ १३,

-हीम् आधौ १२, १, १४^१,
वाठौ ११५, वीधौ ७, २:
१४x, माधौ २, ३, १, १५^१,
४, ३, ३, द्विधौ ८, १, २६^१, -त्या
वाठधौ १४४^३, -त्या वीधौ
७, १८-१९: ३, माधौ, -त्याम्
वीधौ ७, १८: ४, १९ ५x,
वीधौ २१, ४: ४.

उक्थ्या(उक्थ्य-अ)गिनधोम-
-सौ वैताधौ ३८, ८.

उक्थ्यागिनधोम-सवोग-
-नात् मीस् १०, ५, ४९.

उक्थ्या(कथ्य-आ)दि- -दि
वाधौ १४, २, १०, -दिसु वाधौ
१०, ६, २१, आधौ ११ १३,
३, वैताधौ १७, ६, मीस् ३, २,
२९

उक्थ्या(कथ्य अ)न्त- -न्ते
वाधौ १२, ५, २३.

उ(कथ्य >)कथ्या-भक्ति-
-क्ति निस् ६, १ २५

✓उक्थ्याय > षठ्कथ्यायु-
-युग्म् आधौ १२, २८, ११^३,
-युवे द्विधौ ८, ४, २८^३.

उक्थ्या(कथ्य-आ)द्वृत्ति-
-यय वाधौ १५, ५, ४, -तिभि
वाधौ १५, ५, ६

षठ्कथ्य^३- -आय आधौ ३, ११, २,
माधौ ३, १०, २, द्विधौ २, ६, ९

उक्थ्यमान- -नम् वीध ४, ६, ३,
शुदे २, २३, मैअ ३, -वे काधौ
३, ४, १०x, आधौ

वक्थ्य- -य्य नाशि १, १, ९, पावा
१, १, ११x, -य्यम् वैताधौ

९, १२; याध, -य्या. वाध ११,
३३; -य्ये अंध १: १०; -य्यौ
पावा ४, २, ३६.

वक्थ्य-वशा(सा >)स्व^३- -सम्
या ११, ११.

वक्थ्य जैश्रीका १९४, शुदे १, ५९;
शेति.

वक्थ्य-नाम- -स्य शुदे ७, ८४.

वक्थ्य- -ना निस् २, १: २१,
-कार: अय ४८, ११५^१:

-कारम् षमाय १, ४, ४^३, ८^३;
वाय षं ८, ४^३, ७^३, या १४, ५,

-क्त्- पावा १, १, ७०, -क्त्तु
वीध १, १, १२.

वक्थ्यी(क्त्तु ई)दा- -दायाम् आधौ
२३, १.

वक्थ्य^३- -वाठ ४, १६७, -वक्थ्य वाय
६, ३२, पाशि ९, माशि ४, १५,

शाशि १, १, -क्थ्ये शैति २५०,
-क्थ्येण माशि ४, १.

वक्थ्यो(क्त्तु उ)पहत- -त विध
२२, ७९.

षठ्कथ्य- -इयन्तम् वाधौ १, ३,
१, ९, वाधौ १, ४, ५.

षठ्कथ्य ती- -न्ती आधौ २०,
१६, ६, वाधौ ३, ४, ३, ३०, द्विधौ

षड्कथ्यमान, वा- -ण सुध ५२,
-णम् अय ४२, १, १, -णया

कथ १, ८, १, -यानि अय ३६,
१०, १, अय ५. १२, -नायाम्

कौशि ५६, -जे कौशा ५०, -जेषु
अय १, ३, -मै चाश ८: २.

वक्थ्य^३- -वाठ ३, ३३, -क्त्तु अय
४८, १०२, विध १, ११,

a) यस उप = पर्याय- । b) = विभाग (ह वाधौ ९, १४, ८) । c) च्चलक्षार्थ इति प्रयासे ।
d) यस. । e) = सोमयागविशेष- । f) = साम विशेष । g) औ^३ इति अय । h) उक्थ्य इति वक्थ्य^३
दि । i) पामे पृ २१२२ R द. । j) यस । एतदनु सस्य धर्मिणोम भक्ति- दस्य यदुक्त सतोहम् । k) पामे.
वैप उक्थ्यायवम् दि. द. । l) वैप १६ । m) = मुल- ।

-पृथुना आपथी १२, ३, ३;
बौथी १८, १८: १४; द्विथी ८,
१, ४१.

वच- पाव ३, १, १३४.

वचन^१- आ: प्राप्ता १३, ३०; -नम्
शोथी १, १, १८; वाथी ३, २,
१, २१; वैथी: पावा १, १,
५९; ६७; ८०; २, ४१××; -नात्
आथी १, १, २६; दाथी: पावा
१, १, ३; १९××; -नानि निम् ८,
२: ५३; सु ५, ४। अथ १६,
१९; अर्थ ५: १०^१; २१; २७^२;
वा २, २७; १०, ३१; १२, ३०;
मीम् ३, ५, २१××; -ने आथी
५, ११, ५; उ, १, १३; काथी;
पावा १, ४, १९; उ, १, ३६××;
-ने ३-ने प्राप्ता १, १३; -नेन
आथी ३, १, ८; ५, २०, ५; उ,
शोथी ५, ११, ३; आथी उ, ७,
१५; वा २, ३१; १२, १८.

वचनी^२- नी मात् २, १३,
६५.

वचन- नम् पावा २, १,
५१××; -नात् पावा १, १,
५××; -ने पावा १, २, १.

वचनान(न-आ)नर्थक्य-
-नम् पावा १, २, ६; २, ४, ८२;
उ, ३, १६१; ४, ३४; ६, ४,
१३२; -नवस्य पावा ३, १,
९५.

वचन-कर्मन्- भंसु अथ छद्, १, ७.

वचन-किरा: १- -या गी ५,

२७.

वचन प्रवृत्ति- -सिम्भ्याम् वाथी
छ, ३, ४.

वचन-प्रमह- -ङ्. पावा २, २,
२१.

वचन-प्रामाण्य- -व्यात् पावा
१, १, १××.

वचन-मन्त्रवर्ण-मरण- -जेभ्य:
काथी २, ११, १२.

वचन-वृक्षण^३- -ण: दाथी ११,
१, २; -आ: द्विथी १, १, ४८.

वचन-लिङ्ग- -ङ्गथो: वृद् १, ४३.

वचन-लोप- -प: पावा १, २,
६४.

वचन-विरे च- -धाम्याम् वाथी
१, ८, ३०.

वचन-वेदान^४- -नम् अथ २०,
५, २.

वचना(न-अ)दिदेश- -शे पावा
१, १, ५६.

वचना(न-आ)नर्थक्य- -नम्
पावा ३, १, १३६××; -व्यात्
पावा ६, ४, १५४; उ, २, ३.

वचना(न अ)नुपपत्ति- -त्ति:
पावा २, २, २१.

वचना(न-अ)प्रसिद्धि- -दि
पावा ८, १, ४.

वचना(न-अ)र्थ- -र्थ: पावा
१, १, १२; २, २, ३४; ३, ३, ८७.

वचना(न-अ)र्थ- -> अर्थ-
-व्यात् मीम् १०, ४, ३८^५;
१२, ३, २५.

वचना(न-अ)र्थलोप-विरोध-

-धेभ्य: वाथी छ, ३, २२.

वचना(न-आ)ध(व>)वा^६-
-या पावा १, ४, २३.

वचनीय- -य: वा १, १२.

वचनो(न-उ):पत्ति- -शे: पावा
२, ४, १.

वचस्^७- -च: ऋथी छ, ६, ३××;

शोथी; -चस: उम् २, १४^८;
-पृथुना बौथी १०, ३: ६; १३,
६: १८; कौम् ६, १७; या ९,
३१^९;
-चसे वा २, २५^{१०};
-चांसि आपथी २१, १९, ९; द्विथी
१६, ५, ३; ऋथा २, २७^{११}××;
-चोभि: आपथी १६, १६, १;
वैथी १८, १४: ८; द्विथी.

वचस्^७- -च: ऋथी छ, ६, ३××;

शोथी; -चस: उम् २, १४^८;
-पृथुना बौथी १०, ३: ६; १३,
६: १८; कौम् ६, १७; या ९,
३१^९;
-चसे वा २, २५^{१०};
-चांसि आपथी २१, १९, ९; द्विथी
१६, ५, ३; ऋथा २, २७^{११}××;
-चोभि: आपथी १६, १६, १;
वैथी १८, १४: ८; द्विथी.

वचस्^७- -च: ऋथी छ, ६, ३××;

शोथी; -चस: उम् २, १४^८;
-पृथुना बौथी १०, ३: ६; १३,
६: १८; कौम् ६, १७; या ९,
३१^९;
-चसे वा २, २५^{१०};
-चांसि आपथी २१, १९, ९; द्विथी
१६, ५, ३; ऋथा २, २७^{११}××;
-चोभि: आपथी १६, १६, १;
वैथी १८, १४: ८; द्विथी.

वचस्^७- -च: ऋथी छ, ६, ३××;

शोथी; -चस: उम् २, १४^८;
-पृथुना बौथी १०, ३: ६; १३,
६: १८; कौम् ६, १७; या ९,
३१^९;
-चसे वा २, २५^{१०};
-चांसि आपथी २१, १९, ९; द्विथी
१६, ५, ३; ऋथा २, २७^{११}××;
-चोभि: आपथी १६, १६, १;
वैथी १८, १४: ८; द्विथी.

वचस्^७- -च: ऋथी छ, ६, ३××;

शोथी; -चस: उम् २, १४^८;
-पृथुना बौथी १०, ३: ६; १३,
६: १८; कौम् ६, १७; या ९,
३१^९;
-चसे वा २, २५^{१०};
-चांसि आपथी २१, १९, ९; द्विथी
१६, ५, ३; ऋथा २, २७^{११}××;
-चोभि: आपथी १६, १६, १;
वैथी १८, १४: ८; द्विथी.

वचस्^७- -च: ऋथी छ, ६, ३××;

शोथी; -चस: उम् २, १४^८;
-पृथुना बौथी १०, ३: ६; १३,
६: १८; कौम् ६, १७; या ९,
३१^९;
-चसे वा २, २५^{१०};
-चांसि आपथी २१, १९, ९; द्विथी
१६, ५, ३; ऋथा २, २७^{११}××;
-चोभि: आपथी १६, १६, १;
वैथी १८, १४: ८; द्विथी.

वचस्^७- -च: ऋथी छ, ६, ३××;

शोथी; -चस: उम् २, १४^८;
-पृथुना बौथी १०, ३: ६; १३,
६: १८; कौम् ६, १७; या ९,
३१^९;
-चसे वा २, २५^{१०};
-चांसि आपथी २१, १९, ९; द्विथी
१६, ५, ३; ऋथा २, २७^{११}××;
-चोभि: आपथी १६, १६, १;
वैथी १८, १४: ८; द्विथी.

वचस्^७- -च: ऋथी छ, ६, ३××;

शोथी; -चस: उम् २, १४^८;
-पृथुना बौथी १०, ३: ६; १३,
६: १८; कौम् ६, १७; या ९,
३१^९;
-चसे वा २, २५^{१०};
-चांसि आपथी २१, १९, ९; द्विथी
१६, ५, ३; ऋथा २, २७^{११}××;
-चोभि: आपथी १६, १६, १;
वैथी १८, १४: ८; द्विथी.

a) भाषापर्ये प्र. । b) परिभाषित-संज्ञा. । c) = पृथी-नेवी. । d) पाठः । वचन-किरा- इति

धत्, धात्, प्रत्य. । e) वच. । f) उप. भाष. < √विद् (लभि) । g) शब्दधृ० इति जीर्ण. ।

h) वैप १ द. । i) पार्थ. वैप १ वचस्सुवे ऋ १०, ४०, १३ डि. द. । j) = वचस्. । भावे इ. प्र. उर्ले. (वाउ छ,

१४०) । k) = [वचिप्रत्युक्तिर्य-] उर्केसास्त्र- । वैप ३, ७३९ C द. । l) सप्त. प्यावचम्, इतिहासपुराणम्

<> वच्येतिहासपुराणम् इति पाठे. ।

वच्य- वयम् काशौ १, ३, २, द्विधौ,
 -वययो मीस् २, २, २३, २६,
 -वयय आपय २, ५, ११, द्विध
 २, १, १२, पा ८, २, ८२, मीस्
 ४, ३, ३५, -वयानाम् मय ३ ९,
 १७, मीस् ३ १, २४, ९, २, १७,
 -वयानि आपय १ १३, ९, विध
 १९ २४, द्विध १, ४, २३, वृदे
 १, ४६, ४७, -वये वृदे २, १००,
 -वयै आपय २, ५, ११, द्विध
 २, १, १२, वृदे २, ८८, -वयै
 विप १९ २४, वृदे ८, ६८
 वाक्य ज- वम् वृदे २ १०४.
 वाक्य तस्य () मीस् १०, ३, ४१
 वाक्य नियम- भात् मीस् १,
 २, ३२
 वाक्य परिवर्तमासि- से पावा
 १, १, १
 २व वय-परिवर्तमासि- -सि
 मीस् २, १, ४६
 वाक्य पूरण- -भा या १, ४, ९
 वाक्य प्रतिषेध- -घ पावा १,
 २, ४५
 वाक्य भेद- -व् मीस् १, २,
 २५, २ १ ४५, ३, १, १८, २०,
 -दात् काशौ २६, २, २७
 व वय वत् भासि १०७.
 वाक्य विपर्यय- -घे अत्रा १, १,
 २०
 वाक्य विलास- -वौ निस् १,
 १२ १७
 वाक्य विलास-व- -व्यात्
 निस् १, १२ २०

वाक्य शब्द-व्य- -व्यात् मीस्
 ५ १, ५.
 वाक्य-भास () वीधौ १९, १
 १११
 वाक्य शेष- -य दा १२, २२,
 मास् २, १६, ३, ५, मीस् ३, ८,
 १०×४, -यस् द्विधौ १२, ५
 ३४, -पात् मीस् १, ४, २९
 वाक्यशेष-व- -व्यात् मीस्
 १, २, २२, ३, ४, ५, ८, १, ८,
 ४, २३, १०, ८, १५
 वाक्य सयोग- -भा या ६, १,
 -मात् मीस् १०, ३, ३०, ११,
 ३, ५३
 वाक्य-सजा- -झा पावा १ १, ४५
 वाक्य समासि- -सि आपय १,
 १२, ४, द्विध १ ४, ४
 वाक्य-स्मरण- -घो पावा १,
 १, १४
 व कया (वय च)दा- -शे कौटि २३
 वाक्या (वय आ)दि- -दे पा ८,
 १, ८, -दौ पावा १, २, १७
 वाक्या (वय च) विकार- -र
 पावा ८ २, ८२.
 वाक्या (वय-अ)-व- -न्त भासि
 ३, -न्ते भासि २
 वाक्या (वय च) वकर्ष- -पात्
 पावा ३, ४, १०२
 वाक्या (वय च) परिवर्तमासि- -से
 पावा १, १, १०
 वाक्य इ (वय च) यै- -यं मीस् १,
 २, ४०, -यै पावा ५, २ ८४
 वाक्यायै स्व- -व्यात् पावा

२, ३, ४६
 वाक्यायै-द्वयाना (न-अ)
 यै- > यै (व >) पा- -या वृदे
 १, ४१
 वाक्यायै-निर्गद- -य. वृदे
 २, ११७
 वाक्यै (वय ए) वत्व- -वे मीस्
 ११, २, ५०
 वाच्- पाठ २, ५७, पाग ४, १,
 ४०, १५१, ४, १९०, पावा ३,
 २, १७८, पाक् ण्काशौ ३, ८,
 १×४, शाशौ १७, १७, ११, १,
 आप्यौ ४, १०, ४१, ४×४, वीधौ
 १८, ४२ १५, भाशौ ४, १५
 ३१, द्विधौ ३, २, २१, वैताशौ १,
 १८, वृदे १, १२८, २ ४०, ४५
 ७२, ७६, ७९, ८४, शुष १, ५६,
 ५७, ३१३, ३८५, शुषा १,
 १, ० ण्वाक् आशौ ३, १, १४,
 वाशौ ९, ८, १५, आप्यौ २४,
 १४, १२, द्विधौ, वारिम. गोष्ट
 २, ७, १२, गोवि, वाच ण्काशौ
 १, २, १२×४, ण्काशौ १, ६, १३,
 ६, १ १७, आप्यौ ११, २०,
 ११, माधौ २, ३, ६, १०, ६,
 २, २, १०, द्विधौ ७, ८, ४४, १,
 या १, २०, ६, २, १०, १७,
 १२, ३०, १३, ८, १२, १४,
 १४, ११, तैत्रा २३, ३, ४,
 ण्वाच आशौ ८, १३, १०,
 शाशौ, वाच्य आशौ १, ४, ११,
 २, ५, ५, १३, ११, ८, १,
 १७, १०, २०, ४, ६, ४,

a) वस । १००० इति वीस । b) उप वतरि वृत् । c) वस । d) वैप १ द । e) तु
 पागम । f) व्यप । g) पागे वैप २, २४ प्राण देवा ५ १, ५ टि द्र । h) स्या मे ४, २, ५ वा इति
 पागे । i) = (अमृष्ट्यापय-) ऋषिवा । j) वस् इति पाठ १ यनि शोध (प्र प्रकरणम्) । k) = देवता- ।
 l) स्या वाच (तै ३, १, १०, १ प्रस् वाना १०, ६ श्रेणि १, ५२ च) <> वान (गोत्रा २, २, १७ च) इति पागे ।
 m) = दसदा विशेष- । n) पागे वैप १ द्वाचम् ऋ ४, ५७, ५ टि द्र ।

१०^१; शशी; षा वा ४, १०^१;
१२, १२^०; यावा आश्री २,
५, ७^१; ३, १३, १८^१; ४, ८,
२५; शशी; षावाचा शशी
७, १०, १५^०; शशी १०, ५६;
२; वाचि आश्री ११, १८,
८; शशी; वाचे षाश्री ३, १,
१४^१; ४, १३, २; ६, ९, १;
शशी; काश्री ९, ८, १५^१; १४,
२, १५^०; १५, ४, ९^०; वैताश्री
१८, ५^१.

वावा- वा ४, १, ४.

वाक्-चक्षुः-क्षी-संपत्, ता- -तः
गौष ३, १७; -त्त गौष १८, ३.
वाक् चित्ता(त-म)नुकूल- -कः
वैध १, २, ७.

षावाक्-पति- -ति: आश्री १०,
७, १२; शशी ६, २: २०; २१,
८: २२; माश्री १०, ५, १, हिथी
१०, १, ५०; वैष्ट ५, ४: ६.

षावाक्-पा^१- -या: आश्री ५, ६,
१, शशी ७, १४: २४; -पाश्री
शशी ७, १२: २०.

वाक्-पाश्र्व- > ^१व्य-दण्ड-
पाश्र्व- -व्यस्य वाध १७, ६१;
-व्ये विव ३, ५१.

वाक्-पु(> त)व- -ता शैशि
२५५^१.

वाक्-श्रु^१- -श्रु हृदे ८, १११.

वाक्-प्रतिपक्ष- -नाम् विध ६,
३८.

वाक्-प्रतिष्(> व)वा- -ववा
वा १, २०.

वाक्-प्रयोग- -मा: तीप्रा १८, ४.
वाक्-प्रसरिषु^१- -पु: आश्री १०,
२, २७.

वाक्-प्रवाद- -द: निम् ८, ६:
२७; ५१; -द्वेन निम् ८, ६: ५३.

वाक्-प्रसार-काम- -गस्य पाश्र्व
१, १९, ७.

वाक्-प्राथ- -शौ हृदे ४, २९.

वाक्-शरत्^१- -रत्तम् वैध ३,
४, ५.

वाक्-संहिता- -ता निम् ६, २:
११.

वाक्-सत्य- -त्ये वा १, २०.

वाक्-संज्ञव^१- -व्य: आश्री २४,
१, १५.

षावाक्-सामस्थित-यत्न^१- -स्तः
आश्री १, २, १^१.

वाक्-संवाच- -व्ये वाध २१, ७.

वाक्-सामान्त^१- -क्त: निम् ३,
४: २१.

वाक्-सूक- -तम् वाध २८,
१३; शेष १०५; वृदे ८, ४३.

वाक्-गक्षर- -राणि निम् ८,
५: २६; २७.

वाक्-शत्र-व्यल- -कः वाध ६,
४२.

षावाक्-शन्त^१- -न्तेन काश्री ७,
२, २८; वैश्री १२, ५: ७.

षावाक्-शन्त^१- -न्तः काश्री ९,
१३, ३२.

वाक्-वपहारक- -कः विध ४५,
१२.

वाक्-वपहारिन्- -री शेष

३७६.
वाग्-शाम्भूणी-> वागाम्भु-
णीव्य^१- -व्यम् वा ७, २.

वाग्-उक्त- -क्त: निम् ८, ६:
२१; ५२; -कम् निम् ४, ८:
२३; ३३.

वाग्-उपाय^१- -यानि निम् २,
१०: २३; -यौ निम् १, १२:
१२.

वाग्-शेष- -शेषु वा १, २०.

वाग्-दण्ड-पाश्र्व- -व्याग्याम्
गौष १२, १.

षावाग्-वा- -दा: आश्री १७,
५, १६; वैश्री १८, २१: १६.

वाग्-देवता-> ^१व्य, व्या-
-व्य: श्रु २, १२५; ८, १२३;
अम १६, २; -व्यम् अम ४,
३०; ७, ४३; -व्यस्य शशी
६, ११, ११; -व्या शशी २५,
८: १५; -व्ये वाध १, ४४२-
४४३.

वाग्-वैव- -वम् कुम १,
२६६.

वाग्-वाहू(हु-ज)द-संपत्- -तः
गौष २, १८.

वाग्-मुष्टि-कार्य- -र्याणि वाध
६, ९.

वाग्-मन्^१- वा ५, २, १२४;
पाश्र्व ४, १, ११०^०; -म्यो
शशी १, १, ७; शशी
१, १, ७.

वाग्-मयन-वा ४, १, ११०.
वाग्-वत्, ता- -तः काश्री १,

a) कु. आन. । वापम् इति BI. ? । b) पति, वैप १ वापम् अ २, ७३, २ टि. प्र. । c) सय.
सि ५, ६, ७ वाचा इति पाठे. । d) पति, ७ २१२६ । प्र. । e) = देवता- । f) वे १ प्र. । g) पत्. ।
h) सक्तव्य छान्दोग्य-भाष्येण इतीव भाष्यस्य । i) उप. < √ वच् । j) पग. उप भा. । k) पाठः इ
वानसमा इति शेषः । l) = उरुच-स्वर- । पत्. । m) = सूच-विधेय- (श १०, १, १५) । तेन शेषः छ. प्र.
n) पाठ ५, ११ कृद्वापिति । o) व्यप. ।

१२, १६, २, ५९, ३, १२, ९,
 ४, १३, १, शाश्वी, आपध १,
 ३०, ८^१, -तम् काश्री ७, ३, १,
 वाश्री ३, २, ४, १०, हिथी ७,
 १, ५७, -तस्व आपधौ २०,
 १, १६, वाश्रीसि २७ ६, हिथी
 २४, १, १०, हिध १, ८, ८^१,
 -ता शाय ४, १५, २०, -ता
 शीश्री १०, २१, १०, आपधौ,
 -वाद् वैष्ट ४, ४ १६, -तम्
 गोष्ट २, ३, ४, दाष्ट १, ४, २,
 -त्राय कीष्ट १, ८, १९, २, ७,
 २४, हाष्ट १, १३, ८, २, १२,
 १२, -ताया वैशौ १२, १३
 १४, -नेन गोष्ट ४, ३, १, -तौ
 आपधौ ७, १७, १, ९, ७, ८,
 शाश्री.
 वाग् यमन- -नम् शाश्री १, ५,
 ३५, १२, २६, शाश्री
 वाग् रूप-वय शील-सपच-
 नान् शोध १५९
 वाग् रूप वय श्रुत शील-वृत्त-
 -नानि शष्ट १ २, २
 वाग् रूपा (१-म) ध्यातोय-
 कल्पना- मया श्रुच १, २६८
 वाग् वज्र- -त्र नाशि १, १,
 ५१
 वाग् विहस- -तुषाम् श्दे ७
 १११
 वाग् विपय- -व पाप्रवा ८, १
 वाग् विसर्ग- -म शाश्री २,
 १७, १२, ८, १३, २९, गोष्ट २
 ३, १४, ३, २, ३७, मीस् ११ ३.

१४
 वाग् विसर्ग- -नम् वाश्री ४,
 १०, ६ १२, १४, ७, ४, १५,
 १२, ४, २५, -नात् शाश्री २,
 १, २, ३९, वैताश्री ११, १३.
 वाद्-नामन्- -म या ४, १६,
 -मानि निध १, ११, या २, २३
 वाद् निधन^१- -नम् दाश्री ८, ३,
 ११, लाश्री ४, ७, ९, -तस्व
 छम् २, ५ १७, २३, -नानि
 छम् ३, १० २८, निस् १, १२
 ६, २, १०, २३, ४, ६ २०.
 वाद् मन- -र्म- -वृषट- -वृष्टे
 कीष्ट २, ६, २५,
 वाद्-मनस्- -चिन्ता- -न्तायाम्
 अप्राय ६, ८
 वाद्-मनस- -पा ५, ४, ७७,
 पाग २, ४, १४, -से निस् ४,
 ८: २३, ३८
 वाद् मय^१- -यम् वाष २५,
 १०, याशि २, ११५ -ये श्रधा
 १२ २६, नाशि १, १, ७
 वाच यत्^१- -त वैष्ट ५ १३
 ११
 वाच यम- -पा ३, ७, ४०, ६, ३,
 ६९, -म वीश्री १, १ ८४४,
 माश्री, -मम् वीश्री २,
 १५ १७, -मथो वीश्री ६,
 ६ ११, ७ १४, -मस्व
 वीश्री १५ ३ २, वाश्री ३,
 ७० ५ -मी वीष्ट १ १०, ११,
 वैष्ट ३, ५ ७
 वाच नियम^१- -मी दिष्ट १ २२,

१०१.
 वाचस्व पति- (> शक- वा)
 पाग ५, २, ६२.
 वाचस्वपति-लि(क >) शी^१-
 -शाधि कौस् ४१, १५.
 वाचस्वप- -यम् अम १,
 १
 वाच स्तोम^१- -मम् शाश्री
 १५, ११, १, -मस्व शाश्री १५,
 ११, ८, -मा काश्री २२, ६, २४,
 आपधौ २२, ५, १, हिथी १७, २,
 ३०, छम् २, ९, १२, -मेन
 शाश्री १५, ११, १.
 वाचा कर्मन्-> शी^१-
 -नम् आपधौ ८, ५, १७.
 वाचाट- -ल- पाशु ६, २८,
 पा, पावा ५, २, १२५
 १वाचिक- -पा ४, ४, १९, ५,
 ४, ३५
 २वाचिक^१-> का(क आ)दि-
 -विपु पावा ५, ३, ८४
 वाचो-यम- -मस्व वाश्री २, १,
 २, २०.
 वाचोयम सद्युक्त- -कम्
 वीश्री २१, ९, १२४.
 वाचो युक्ति- -पावा ६, ३, २०.
 १वाच्य- -वा ४, १, १५१^१, पावा
 ४, १, ८५
 वाचक- -क अप्राय ३, ८, अय
 ४७, १, १३.^१
 १वाचाकाम् अप्राय ३, ७
 वाचन- -नम् वाश्री ७, ९, २०,
 वीश्री १४, ४ ३५, मीस् ३, ८

a) स्या वाचयत <> वाचयत्यस्य इति पाठि । b) वस । c) = वाचस्वप- । ताम्प्ये मयद् प्र
 (तु पाशिरा [पावा ८, ४, ५५]) । d) द्वितीयपाठस्य स । पूष दि प्रलुत्, उष वर्तति शब्द । e) = वाच यम- ।
 f) छ पागम । g) शाश्री आपधौ पाठ । h) = एतद्विभक्त- । वस । i) साधेऽर्थे ख > ईन प्र
 उस (वा ५ ४, ७) । j) < √वच् । k) < वागाशिन् इति पाठ, < वागाशीर्त्त- इति पाठि ।
 l) छ एव प्रथ, वैष्ट MPO धान्य- इति ।

१८, -नाय काश्री १४, ३, १९,
-ने काश्रि ४, ४, १३, अय २१,
१, ६, ६८, ५, २५
वाचपत्- -यन् काश्री ९, ७, ८,
आपश्री १६, १०, ७, १८, १४,
१०, बौधौ
अवविश्व- -अय आपश्री ३, १५,
१२
वाचविष्वा काश्री ८, १२, १०,
आपश्री
वाचविष्पत्- -यन् आश्रि २, ३,
२, ३
काश्रि काश्री ५, ९, २६, १०, १०,
२२, २४, १४, २६, १५, २३, ३,
१८, १३, २०, ८, आपश्री १३,
८, १३, १६, ६, बौधौ ८, ८,
३२, १५, २९, १४, १०, ३,
४, १०, ११, काश्री २४, ६, २५,
५, ३, २७, वाश्री ४, ८, १६,
बौधौ १६, ९, ३, १६, ३, २०,
२, हिश्री ९, २, २६, ३, ६२,
वैताश्री २१, ५, १५
पाश्रि- ८ अय ८, २, ४, -ने
कौश्रि ६८, २८
वाच्य कौश्रि १, २०, ८
२वाच्य, च्या- पा ७, ३, ६७, -य
बौध १, १, १३, विध ५, १८६,
६, १८, अश्रि २, ३, ३८, ९, ८४,
मैश ३२, -अय कौश्रि १, २५,
६२, २, ९६, मैश ३३, अय
१, ६, अश्रि २, २८, पाश्रि ४,
१, २७, ८५, -य्या विध
३२, ७, -य्या आश्रि २, ३,
४, २, -य्यौ अश्रि २, ८, १००

वाच्य त- -यात् काश्री ५, ४,
४, १८, २, ८, मीश्र ११, १, ३७
वाच्य पत्- -लेपु काश्री १,
१०, १०.
वाच्यमान- -न कौश्रि ६३, २०, ४४,
-ना वैधौ १८, ५, १२
विवक्षित-> श्वत्- -श्वत् वत्
१, २, ६८, ३, १, ८७, २, १२०,
४, १, ९२, ९३
वचस्त्रु- -वाट ३, ८१
वाचवन्(व>)श्री- -श्री अश्रि ३,
४, ४, कौश्रि २, ५, ३, काश्रि १०,
३, अय ४३, ४, २३
वचन- प्रसु वच् द
वचा- -चया अय १, ४४, १०, -चा
कौश्रि १, ५, ८, अय ५, १, ५
वचा(चा/अ)धिक- -अय वैश्रि ३,
१५, ९
वचाकु- (->वाचाकु-वा) पाय
४, १, १६
वचि- वच् द
वच्यमान- वच् द
वच्यूल- (->वचि-)
वच्य(वया) पाशा अश्रि पर गतौ,
तुदा पर मार्गसंस्कारगतौ, वाच
यति निष३, १४, १, १, ११, १६,
आश्री ८, ८, २, ९, ११, १६,
शाश्री, वाजय वीश्री ११, ७
३३
वजि-(->वजि मत्-वा) पाश्रि ८, २, ९
वज्र(वया) पाश्रि २, २८, पाय
२, ४, ३१, -अ काश्री १४, ३,
११, १५, ७, ११, २२, ११,
२४, आश्री, बौधौ १४,

२५, १, अय ४८, ३०, ४, १,
५२, ८, १, वा ३, ११, ७, ७,
१२, -अय काश्री १०, १३,
१३, ४, आश्री, वा ६, २०, १,
-अय काश्री ८, १७, ११,
वाश्री, काश्री १०, २, ४, ७,
-आश्रि अय ६, ६, -आश्रि
अय ४१, ४, ३, -आश्रि
वाश्री ४, १५, ६, -अश्री
३२, १७, मिश्र ८, ७, १०,
२१, अय ७२, १, ३, -अश्रि
आश्री १, ३, २२, काश्री
१, ५, १, काश्री ३, १, १, १,
२२, ११, ३, आश्री २२,
१३, १३, ४, काश्री ९, ४,
३८
वज्र किञ्ज(क>)का- -का.
आश्री ९, ५
वज्र कुण्डल-सशि(म>)मा- -मा
अय ७, ४, ५
वज्र दप्ता-> वच्- -वच् शय
३७
वज्र दक्षिण- -अय काश्री ७,
११, ३८
वज्र-देवता-> वच्- -वच् अय
१९, ६६
वज्र पर- पाठ २, २२
वज्रपर(र-आ)मक- -के अय
६४, १, ७
वज्र ए- -ए कौश्रि ७, ३२
वज्र नामन्- -अ का ५, २४, ६,
१७, -अश्रि निष २, १०, वा
३, ११
वज्र-वाशि- -पाय २, ३, ३७, -शि

a) वैश्रि १ द । b) वृ २१२३ व द । c) वत् । d) वय । e) <वच् दशि ।
f) वैश्रि ३ द । g) = [मेघाजननी-] कौश्रि । h) वचिश्च दशि ८ अय ३६ । i) वृ पाय ।
j) वृ ८२७ द । k) विशेष टि द । l) = एगद विशेष । m) = वहु वृ । n) = वान-
विश्रि । o) अर्थ २ । p) विष (वच्) । वत् एव = २२४ विशेष ।

अप ६७, १, ७; ७, ४, -गिना
 अप २३, १०, ६.
 वज्र-विण्ड- वडः या शे २, ११.
 वृज-वाहु^१ -हुः बीधौ १८, ४१ :
 २; वा २, २६; -०हू आधौ
 ३, ७, १३; अप्राय ६, ९.
 वज्र-भू(त>)वा- ता अप ३६,
 ६, ३.
 वज्र-भृत्- भृत् बीधौ १०, २४ :
 ११५.
 वज्र मणि मुक्ता(का-आ)दि-
 -दिभिः अप १८, ३, १.
 वज्र-रूप^२ -पाणि बीध १६, २४.
 वज्र संस्मय- वः वृदे ६, १२०.
 वज्र-संरियत- ने अप ५०, ९, १.
 वृज-हृत्^३ - -स्त आधौ १७,
 ८, ७; वैधौ १९, ५ : ५१; -स्तः
 बीधौ १८, १० : २३.
 वज्रा(का-आ)कर^४ -रम् वैश ७,
 १३ : ९.
 वज्रा(का-आ)दि- दयः अप ६४,
 ७, ३.
 वज्रा(अ वा)शनि-महीरुप- म्याः
 अप ६४, ९, १.
 वज्रिन्- -त्रिणः बीधौ १०, ५० :
 १९५; अप्रथमं २, १७, २२५;
 सु ३१, ९; या ६, १८५; याति
 २, १३; -त्रिणा वृदे ३, २३;
 -त्रिणे माधौ ५, १, १, ४५५;
 ३, १, ३६; वीश ३, ९, ५; गौण
 २६, १२५; -वृजिन् आधौ ७,
 २२, ५; साधौ ७, १०, १२^५;

निर ७, ११ : १; उनिस् ६ :
 २१; या १३, २; वीधि ३२०;
 -ञ्जी फाधौ ५, १६, २; ६, ३,
 १; शाधी; निस् ८, ७ : ७; वृदे
 ३, ११५; फा ५, १२; ६,
 २३; फौशि १२३; ३३०.
 वज्रिणी^६ -णीः आधौ १७,
 ९, ५, वैधौ १९, ६ : ८; द्विधी
 १२, २, २५; -णीनाम् बीधौ
 २२, ५ : ८.
 वज्रो(अ-व)क, का- -कम् निस् ६,
 १० : २; ७, १२ : ११; -काः
 निस् ७, १३ : ३; ८; १६; ८,
 ७ : ७.
 वज्रोक्त-तर-राः निस् ७, १३ :
 २०.
 वज्र- (>वाज्रेय- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 √वज्र^७ पाषा. भा. पर. यत्तौ;
 पुरा. आराम. प्रलम्भने, वज्रति
 निप २, १४५.
 वज्रमान-नाः आधौ ३, ७, ५५.
 वज्रत्- -वते आधौ १२, १६, १५.
 वज्रथ- पाठ ३, ११३.
 वज्रन्^८ -> न-वत्- -वन्तः या ४,
 १५.
 वज्रिन्- -त्रिभिः अप ६५, १, १.
 वज्री-> वाज्रेयक- पा.) पाग ४, २,
 १५.
 वज्रजूल- पाठमो २, ३, ११०.
 वज्रजूल- पाठमो २, ३, ११२.
 √वद पाषा. भा. पर. परिभाषणे,

आराम. वेष्टने; पुरा. उभ. प्रथे,
 वेष्टने, विगाजने^९, वज्रभे विप
 ४३, ३८^{१०}.
 वद् पद् ६.
 वद^{११} - पाठना ४, ११६; पाग ४, २,
 ८०३; ८६; -टस्य अप १, ४३,
 १; -टे विप ८५, ५१^{१२}; ६६^{१३}.
 वट-न- पा ६, २, ८२.
 वट-वत्- पा ४, २, ८६^१.
 वटा(ट-अ)दरत्य- -दरस्य अप २६,
 ५, १.
 वटा(ट-अ)सना(न-अ)क-दिर-क-र-
 अ वद-सर्ज-निम्या (म-अ)रि-
 मेद(द-अ)पामागं-मालती-क-क-
 म-दिर- -स्वानाम् विप ६१,
 १४.
 वट्य- पा ४, २, ८०.
 वट^{१४} -> ट-क-> क(र>)नी-
 पाषा ५, २, ८२.
 वट^{१५} -
 वाट- पा ४, ३, ११६.
 वटाकु^{१६} - (>वाटाकवि- पा.) पाग
 ४, १, १६.
 वटारक^{१७} - पाग २, ४, ६९.
 वटि- पाठ ४, ११८.
 वटि-म- पा ५, २, १३९.
 वट्ट- पाठमो २, १, ७.
 √वट्ट पाषा. भा. पर. स्थौल्ये.
 वटर- पाठ ५, ३९.
 वड- (> वट्य- पा.) पाग ४, २,
 ८०.
 व [व^{१८}] डया, व^{१९} वा^{२०} [वा^{२१}]- पाग

a) वस. । b) विप. (निर्वधि ?) । वस. c) वैप १ द. । d) पा १, ३, ६९; ७, ३, ६३; ४, ८४ पराएकः
 द. e) विप. [वद- (यु. डु PW. MW.) वैद. सा [अ २, ७५, ५] एक. राज. वचन^७ इति] । f) √वद इति
 [वके] BPG. । g) √वद इति [वके] BPG. । h) भा वेणके उतिरिति माध्यम् । निघण्टे इति अर्थः ।
 i) = वद-विशेष- । j) वदवदते इति अर्थः । k) = वीर्य-विशेष- । l) वटा^{१४} इति पागम. । m) = पिट-
 निघार- । n) वृ १०८८ द. । o) व्यप. । p) वाटाक- इति पाति. । q) पागम. पाठः । r) आधौ १९, १६,
 १३ वीधौ २४, २१; ३ प्रमृ. पाठः । s) माण्डा. वाधौ. द्विधी. अप. प्रथ. पाठः । t) पागम. आधौ. वैधौ. प्रमृ. पाठः ।

छ, १, ११२, ०, ३८, ४५, १७,
 ५, ३, ११६, १३६, ६, ३, १०८,
 पागवा छ, २, १७, -य वीथी
 २४, ३१ : ३, वीथी छ ३, ३३,
 -कवम् आगथी १९, १६, १३,
 वीथी २४, ३१ : २, द्विथी
 २२, १, १०. -वा शीथी १४,
 ४१, १२, वाथी, आय ३, ४,
 ४, कौष्ट २, ५, ३, शीथ ४,
 १०, ३, अय छ ३, ४, २४,
 -वा आगथी १७, २०, १०, १,
 २०, १३, ६, वीथी १५, १७
 २७, १८ ३, वाथी ३, ४, ३, ५,
 द्विथी १४, ३, १०, -वान् वाथी
 ३, २, ७, ३९, -वामि वीथी
 १२, २ १४, १७, १५ ८ ३,
 ५, १२, -वाम्य काथी २०, २,
 १२, -वाम् शीथी १५ ४, १२,
 आगथी, -वाम्याम् वाथी ३, ४,
 १, ४५, विष ८५, ३७, -वे
 आगथी १७, २०, १०, १०, १७,
 ६, वीथी १५, २८ १८, १,
 द्विथी १४, ३, ५५
 वाटन- वा छ, १, ११२, २, ३८,
 ४५, पाग ५, १, १२४
 वाटन्य- वा छ २, ४१, ५, १,
 १२४
 वाटन्य- वा छ, २, १७
 वडम धेनु- -नुम् काथी १९, ४, ५
 वडमा धन- -ज वीथी १५ १७
 २६

वडमा गर्दमी- -म्यो कौष्ट ९३,
 १८
 वडवा वण- वा ५, २, ११६, १३६
 वडविक- वा ५, २ ११६.
 वडविन्- वा ५, २, ११६, १३६
 वा, गडभीकार- पाग छ, १, १५१
 वासमीकार- -रस्य तैवा १४, १३
 वाडभीकार- वा छ, १, १५१
 वडाफ- (> वाडाक- वा) पाग छ,
 १, ११२
 वडारक- पाग २, ४, ६९
 ✓वर्ण पावा म्वा पर शब्दे
 वण- -ज वाअ २ १२१
 वणिक-, वणिकि- पाग छ २, ८२
 वणिक- वाट २, ७०, पाग ५, ४,
 ३८, -गिक् वाप ३, ३, छय
 छ०५, गीथ १७, ७, गार, १७, १, १,
 ६, ६, -किमि गीथ १०,
 ३४, -गिज अय १, ४३, ४, छ८,
 १२८, या ६, २६, आगथी ७,
 ३, -गिलाम् माण २, १४, ००,
 पा ३ ३, ५२
 वणिक- वा ५, ४, ३८, -जाय
 तैवा १३, १२, -जे पा ६, २,
 १३
 वागिक- पाग छ, २, ५४,
 -कम् वीथ १, ५ ८०
 वागिक विष- वा छ, २,
 ५४
 वागिज- -जयम् वाप २ १९,
 विष छ० १ छ८, ४३ -ज्यानि

सुष ८
 वागिज सिद्धि- -द्विम् विष
 छ८, २०
 वणिक पथ- थ माण २, १४, २०,
 -धानम् राध २६२
 वणिक प्रवाण- -जा अय ५१, ४, २,
 वणिक-प्रयजित वृद्ध-वैद्य- -राम्या
 राध ७७
 वणिक, ग्या- पावा ५, १, १२६,
 -ज्या अयथ १, २०, १०, द्विष
 १, ६, २४
 वणिक- -जम् आगथी ४, ५, ५, १०
 वणिक- -जे आगथी ५, १७
 वणिक- जानाम् आगथी ५ १०
 ✓वण्ड पाधा म्वा^१ सुय^१ पर
 निमाजने^१
 ✓वण्ड पाधा म्वा अत एवर्षायाम्,
 सुय^१ पर निमाजने
 ✓वण्ड^१ पाधा म्वा अत निमाजने
 वण्ड-> वण्ड चिति- -ति वीथी
 छ, २४, ५, १, २५ ६, ८,
 २६ ५, ८
 वण्ड द्विष १, १५, ५
 यत् वा ३, १६, पाग १, १, ३७, ४, ५७
 वण्ड- वाट १, १२९, पाग छ,
 १, १८, ७२, १०५ ११२
 वण्ड- वा छ १, ७३ १०९
 वण्डगण(ण्टी का)दि- विषु
 पावा ६ ३, ३३
 वाण्ड- वा छ, १, ११२
 वाण्ड- वा छ १, १०५ १०८

a) तु पागम । b) = तीर्थ-विशेष । c) = वडवा । कम । d) -वप । e) भोज समत मति
 पागम । f) पावा छ ४, ३ परावृष्ट. द । g) वृ १०४४ y द । h) विष १६ । i) = वणिक- । स्तार्थ
 सुनु प्र ठस (वा ५ ४, ३४) । j) सप्त मनु ८ १०२ 'अजिगाद् इति पागे । k) मर । l) मान ।
 m) = [नोति कारन प्रतिद्व] परव्य विशेष । n) स्वार्थे प्र । o) = वाण्ड । p) वृ BPO । q) ✓वण्ड
 इति कोषद (तु माण्ड) । r) वृ २१३० G द । s) ✓वण्ड इत्ये (तु पाति) । t) = विधि-
 विशेष- । u) वाट १ मत् (< अरमद्-) इति शेष (द पागे वृ ४९७ dl) । v) तुवार्थे अय ।
 w) = ऋषि-विशेष- ।

वतण्ड्याय(न>)नी- पा छ,
१,१८

शक्ति- नीन् वाधुश्री छ, ७५, २१,
३२

वक्ति- पाठना ५, ६

वत्सन्- पाठमे २, १, २८०

१वत्स.स्ता- पाठ ३, ६२, पाण छ,

१, ४, ५, १, १२२, ४, २९०,

-०त्स अण ७०, १, ४, -त्स

आश्री छ, ७, ४, शी श्री ३, १२,

१२, १३, २४x४, काथी ९, १,

९, आपश्री, वाधुश्री ३ १०

१०, ३०, साश्री ७, ५, १०, निम्

३, १३, ६, आपम २, १५,

४, १०, आप २, ८, १६, १०, शी

३ २, ६, १, शी ३ २, ९, १०,

पाण ३, ४, ४, १, अमिण्ड २,

४, १ : १५, १, वाण ११,

२, १, माण २ ३ ८, १, माण

२, ११, १२, १, दिण्ड १, २७,

४, १, वाण २८ ८, वीध ६,

५, ४, तिण्ड २०, ४७, २३,

४६, मीण्ड ६, ४, ३८, -त्सम्

आश्री छ, ७, ४, १, १२, ७, १२,

श्रीश्री, -त्सम् शीश्री २, १२, ४,

आश्री, शीश्री २४, २, १०,

-त्सा शीश्री २, २३, १, काश्री,

-त्सात् काश्री छ, २, ७, ५, ६,

२८, १२, ३, १३, २५, ४, ११,

-त्सात् काश्री ३, १०, ३०,

आपश्री छ, २, ३, शीश्री १४,

१४ ७, २०, ३ २९, भाश्री,

शय १७७, -त्सम् आपश्री ६,

१७, ५, कौम् २१, ११, अत्रा २,

४, १६, -त्सम् आपश्री १५,

६, १४, भाश्री ११, ६, ११,

-त्सम् हिश्री २२, ४, २०, -त्से

श्रीश्री ५ १०, ५, विण्ड ९२, १७,

-त्सेन शीश्री २, ८, ६x४, भाश्री,

-त्सेम् आपश्री १, १३, १०, १,

वीश्री, -त्सेण्ड आश्री ३, ११,

७, आपश्री छ, २, ६x४,

वीश्री, -त्से वीश्री २०, १, ४४,

भाश्री छ, ३, ९, वाधुश्री २ ११ १२,

हिश्री ६ १, ३०, -त्से आपश्री

८, ११, १७, वीश्री छ, १ २३x४,

१वात्स- वा ५, १, १२२

वत्सक- वा छ, ३, ३९

वत्सक- वा ५ ४, २९, कम् अण

९, १, ३, विण्ड ७१, ६२.

वत्सगवाम् वाश्री ३, २, २, ३

वत्स च्चरी- वीम् आपश्री १७,

२६, १४, २२, १, ११, हिश्री १७,

१ १३, काश्री ८ २, १, -व्यो

काश्री २२, १, २०

वत्स जनु- जुम् काश्री १, ३, २३

वत्स जु- जुम् आपश्री १, ६, ५,

वीश्री १, २ २८, २०, ३ १४,

भाश्री १, ६, ५ माश्री १, १, ३,

१, वाश्री

वत्स-व(न्ति)>नी- वीम्

आपश्री १, ३१, १३, वीध २, ३,

३६, हिण्ड १, ८, २७, शीध ९, ५२.

वत्स तन्त्री- -त्रीम् वाध १२, ९,

विण्ड ६३, ४२.

वत्स-व-वा-पा ५, ३, ११, किण्ड, -र

काश्री १०, २५, १७, १५, १८,

१०, २३, -रम् वीश्री २, १४,

१०, ८, २२ १२x४, भाश्री, -राः

काश्री २२, ९, १२, लाश्री ९ ४,

२१, -राम् वीश्री १८, ११, २, २,

४, ६ ९, ११, १४, -रेंण वीश्री

१८, २१ २, २६, ३७ ११,

हिश्री ७, २, ६८, -रै. आपश्री

१८, २०, १५, वीश्री १२, १७

१९, वाश्री ३, ३, ४, १३, हिश्री

१३ ७ ४, -री माश्री १, ५, ६, ८

वत्सरी- री आश्री ९, ४,

३, ३०, आपश्री १०, २५, १५,

वाश्री, -री काश्री २३, ४, ५,

आपश्री ५ ७, १, २२, २०, १३,

वीश्री, -रीमि आश्री १०, ३,

२९, काश्री २३, ४, ८, वाण ५२,

६, अण १८, १, ११, विण्ड ८६,

१२, -रीम् आश्री ८, १४, १२,

वीश्री २, १४ २०x४ द्राश्री,

-रीणु आप १८, १, ११, -र्यं

काश्री १२, ५, १४, २२, ९, १३,

२३ ४, ६, आपश्री, -र्या कौण्ड

१२, ८, वाण्ड ७, २३

a) वीण्ड १६ । b) तु पाणम । c) = [अण्ड्याय] आह्वनीयादि- । d) = महानाश्रीनाग-
विरेप- । e) वाट- ! क्या इति शीध- । एण पाण्ड ३, ४, ४, ८ रेंण्डे > (√अण्ड > भावे) *जवत्स- + (√क
> भावे) *हृ- > वत्स श्री *जवत्स हृवा- (माण्ड- > -नाभि > *जकताभि > *जगताभि इति, शी ३,
१७, ७ आपम २, १५ ४ न जवत्स- [*जायता > (< √*जा [√जव] > भावे *जा- + [√वत्स *भावे
= वत्स] > भावे] वत्स- > वत्स रयी]] -त्सा इति आप, २, ८, १६ *जायता > *जायता- [माण्ड-] > -त्सा इति
व शीध ६ । पाण्ड वत्स *भाण्ड्यु > *भाण्ड्यु (भाण्ड्यु) इति शीध ६ । f) सपा *वत्सवत्स >
*वत्स इति पाण । g) तु वीध । h) वत्स- = वत्स- । i) वत्स । j) पररारं पाणे । k) = वत्सतन्त्री- ।
l) पररारं पाणे । m) तु आप । *री इति III ।

वासवरी-युक्त- -कम्
विष ८६, १७.
वासवरी-दात- -तम्
काश्री २४, ५, २८; -ते लाथी
१०, १७, ३.
वासवरा(र-अ)दि- श्रीगाम्
शत ३, ५, ६.
वासवरा(र-अ)मं- पावा ६, १,
८८.
वासवा-कामम्- पा ५, १, १२२.
वासवच्- -त्वक् मीत् १२, ३, १; २.
वास-प्रि, प्री- -प्रियः चाष १६:
१६^{१०}; -प्रोः शत्रु २, ९, ६८^०;
१०, ४५^०; शुभः; -प्रैः शत्रु २,
८, १.
वासव^१- -प्रम् काश्री १७, १,
२; वीथी १०, १९; १९; २२,
४; १२; १६; काश्री; क्षुत् ३,
६; १०; ११-१३^०; निम् ३,
१२; १५^०; मात् १, १३, ११^१;
-प्रत्य क्षुत् ३, १०; ११^०;
लाथी ७, ७, २९^०; तैषा १०,
२३^०; -प्राणम् क्षुत् ३, १०;
३७^०; -प्राय काश्री १६, ६, ६;
-प्रेण काश्री ४, १२, १; १६, ५,
२१; आपश्री ६, १९, ८; १६,
११, ६; वीथी; क्षुत् ३, ६; ८^०.
वासव-विष्णुक्रम- मयोः
वीथी २२, ३; १६; ४; १२;
-मेम्यः वीथी २६, २८; ४; -मैः
वीथी २६, २८; ४.

वासवा(प्र-अ)न्त^१- -न्तम्
वाथी २, १, ३, १७^१.
वासवा(प्र-अ)धीवर- -वे
क्षुत् ३, ६; १५.
वासव-अ- > वासवअ-
-व्यधि वीथी २५, ७; ११^०; २.
वासव-नाम्- -तः वीथी ३, ३; ५.
वास-विष्णुन- -नयोः वीथी ३, ६, ५;
४, १, १२; शत ३, १, ४६; ४,
३, १६.
वास-मुल- पा ६, २, १६८.
वास-ल- पाठश्री २, ३, १२१; पा
५, २, १८.
वासव(र >)नी^१- -रवः क्षुत्
३, ७; ६; -त्याः^१ वीथी ३, ४,
३, १७.
वासव-र- -नी काश्री ३६; ४.
वासव-र-रु- -रुक्ष् वीथी १३, ८;
१०.
वासव-शाखा-> वासवाक- , वासव-
शाक- पा ४, ३, ३६.
वासवो(प्य >)प्या^१- -व्यावाम्
कौत् ४८, ३२.
वासव-संयोग- -ये वीथी ६, ४, ३५.
वासव(स-अ)दि- -दिव्यः पावा
५, ३, ११.
वासव(दि-अ)यं- -र्षाः वीथी
१३, ७; १४
वासव(स-अ)नुसारि(र >)शी^१-
-नी वीथी १८२; माशि ९, २;
३, वाशि २, १०; १२; नाशि २,

४, २.
वासव(स-अ)नुसारि(र >)ता^१-
-ता माशि २, १०^०; १२.
वासव(स-अ)नुसारि(र >)ता^१- -ता
शैशि १८२^०; नाशि २, ४, २०^०;
माशि ९, ३^०; ४.
वासव(स-अ)प्राण- -न्तम् काश्री
४, ३, ३५; आपश्री १, १४, १७;
वीथी २५, २६; ६; -गस्य
काश्री १०३; वाश्री १, १, २,
७; -णात् शंथी ४, १, २; द्विथी
६, १, १७; -ये वीथी २०,
१; ६१.
वासवाकारण-प्रवृत्ति- -तीन्
वीथी २०, ४; २७.
वासव(स-अ)यं- -यं वीथी १२, १२;
१७.
वासव(र >)नी- -नीम् वाधुश्री
३, १७; ५, ६.
वासव-र- पा ५, १, १२२.
वासवो(स-उ)र-र- (>)वासवो-
र-र- पा. पावा ४, ३, १३.
श्वत्स^१- पावा ४, १, १०५; -त्ता-
आश्री ७, ८, ११^०; शंथी ९, २३,
१२^०; १२, ११, १६^०; १६, ११,
२०; शतः -सस्य चाष २:
१६, ७; १; १४; ६; साम १,
३६९; -सस्य^१ आश्री १२, १०,
६; आपश्री २४, ५, ११; वीथीप्र
१; २; ३; १५^०; ५; ५; द्विथी
२१ ३, ५.

a) वैष १ द. 1 b) प्रयः इति पाठः इति. शोषः । c) वैदु. सा. श्रिः इति । d) = सुका-
विशेष, [तदुत्पत्ति] चर्म-विशेष । वैष १ द. 1 e) = साम-विशेष-1 f) वासवम् इति पाठः इति. शोषः ।
(दु. झ. 1) । g) = आचार्य-विशेष-1 अत्रयार्थे प्र. 1 h) वरु. । i) वरु. इति पाठः इति. शोषः ।
j) = वासववद्वितीय- प्रथम- । k) अर्थः ? । l) उप. = शेषसंवेदन-चर्म- इति वारितः, = पुच्छसंवेदन-चर्म-
इति P.W. प्रथम । *व्यावाम् इति वेदाव. 1 m) = विष्णु-विशेष-1 n) *नुसारम् इति मूले । सपा. माशि २,
२ अनुसृतवत्सा इति धामे. । o) *श्रुतिः इति सोमयार्थः (तैषा २२, १३) । p) दु. लाट. । *वाम इति वारितम्. ।
q) = श्रुति-विशेष-1 r) वरु. <वासव- ।

२वत्स- वत्स्य शाश्री ७,८,२
 वत्स्य- पा ४, १, १०५,
 -वत्स्य वैष ४, २, २, -वत्स्य.^३
 काश्री १,१,११,३, ६, ५, १३,
 ९,५,०५, -वत्स्य शाश्री १६,
 ११,१९

शाश्री-> वत्सो पुत्र-
 -वत्स काण्ड १२, ७
 वत्स्य-वादि- शी काश्री
 ४,३,१८

वत्स्यवाप- पाग ४,१,०३,
 -वा वीश्री ३ १५, ४३
 ५, -श्री वप १,३,१
 वत्स्यवापनी- पा ४, १,
 ७३

वत्स-वत्- पाग ६,२, ३७
 वत्स भाद्रशाब्दा (ज श्र) त्रि
 पा ४,१,११७
 वत्स वत् वैष ४,२,३, ८,१२

वत्स क- १वत्स- द
 वत्स(क>)का गिरि- क्रत ४, ७,
 १०

वत्स-च्छयी- प्रष्ट १वत्स- द
 वत्सतरा(र श्र)पवर्ग- शी काश्री
 ३ ३,४,२३

वत्स हरी- प्रष्ट, शा- १वत्स-
 द
 वत्सप्र- २वागप्र- -०म काश्री
 २४,१०, १९, वीश्री ५३
 १, द्विशी २१,३, १६

वत्स-वत्-काश्री २४ १०, १६,
 वीश्री ५३ २, द्विशी २२,३,
 १६

वत्स-प्रि, प्री- १वत्स- द
 वत्सर- पाठ ३,७१, -२ वाधूश्री
 ३ १७ ६, वैष ५, १४ ३,
 अत्राय २, ९, -२म आश्रित
 २,४,४ ५, -रात् शध ३६९,
 -रात् शध ३८२, -राय पाण्ड ३,
 २, २, -१रे आपश्री १६, ३१,
 १, वैश्री १८, २० : ४९, द्विशी
 ११, ८, ४, -२रेभ्य वैष २,
 १२ १२

वत्सर शिष्य- यम् काध २७५
 ६
 वत्सरा(र श्र)विक्रम- -मेग विष ६,
 ४

वत्सरा(र श्र)न्व- -गात् पा ५, १,
 ११
 वत्सरी(शु>)गा- गाम् वैश्री ९,
 ११ १३, द्विशी ५, ६ ३

वत्सरा- २ श्रुष १,१८५, ४४८,
 ३, २०१
 वत्सार्थ- प्रष्ट १वत्स- द
 वत्स्यत्- √वत् (निवासे) द
 निचय अ ४८, ७६^२

√वट् (वषा)^३ पाया भ्वा पर
 प्यपायां वाचि, चुरा ठभ
 लदेःशब्दचने, वदते क्रमा १३,
 ५०, माधि १३,३, माधि वदति
 काश्री ५ १३, १४, कां. गी,
 अय १४८, १६^४x, निष २,
 १४, १, वदते या ७, ३०, क्रमा
 ७, ४५, वदत काश्री २१,
 २०, ३, वैश्री १५ २८ :
 २९x, काश्री, वदते अय

७०^३, ६, ३, ८, ५, वदति
 काश्री १०, ९, १, काश्री ७,
 १५, ११, १७, १४, १४,
 काश्री, वदति वैशाश्री ३७, २, १,
 सु ६, २, द्विष्ट, १वदामि ३ १९,
 २, भाण्ड २, २६, १२, १५, द्विष्ट,
 १वदाम^४ पाण्ड १, १६, २५,
 द्विष्ट २, ४, ५, १वदामि^४
 आपम २, १३, ५, आश्रित २,
 १, ४ २०, भाण्ड १, २५ : १२,
 १वदात् आपम २, २१, ३२,
 वीष्ट, भाण्ड २ २६ १२, गोष्ट,
 १वदः काश्री १०, ८, ११,
 शाश्री, वदत्तु सु ९, ४, वदन्तु
 वीष्ट ८४, ८, १वदस्य काश्री
 ५ ७, २, १३, ४, काश्री ७,
 ६, १^४x, काश्री ९, १२, १०^४,
 आपश्री १२, २६, २, वीश्री ७,
 १५ १६^४, वैश्री १५, ३३, १०^४,
 द्विशी ८, ७, ६९^४, १वद, >दा
 काश्री १५, २५, १, आपश्री
 १६, २६, १, वीश्री, माश्री
 २ ४, १, ४९^४, द्विष्ट १, १५,
 ५, १वदो (द-३) वद द्वाश्री
 ११, १, ५, काश्री ४, १, ५,
 १वदत्, >वा काश्री ५ २, १४,
 काश्री २३ ३, १, आपश्री,
 अयदत् वीश्री १४, १ ५, १,
 अय १९, १, १, अयदत् काश्री
 १५ ३, ७, वाधूश्री ४, १, २,
 ६, ४७ १, २, वीष्ट, वदत्
 काश्री १२ ३, १७, आपश्री ४,
 १, १x, वैष १, २, ०^४, वदत्तु

a) = आपार्थ-वितय । b) = अंत विदेय । c) पाठ २ वत्सराप (वत्स) इति शेष (इ सप्त
 काश्री ९, १, ७ वत्सरापान्ते इति) । d) = मयि वितय- । e) वैष १ १६ । f) वृ ११६ b द । g) वषा,
 वष इति गदन्ते इति । h) क्रत ४, ७, १ पा २, ३, ४, ८, ९, ६ १, १५, ७, २, ३ पराष्ट ६ । i) वा वृदी
 १, १ । j) वा गरी वृति- । k) वत्सराप पाठे । l) वत्सराप पाठे । m) वषि वैष २, २ म वृदस्य माश्र

वाधुशौ ४, १ : ३; दाधौ
 ७, ३, १८; लाधौ; ण्वदेम
 दाधौ ५, ९, १९; कौस्
 ण्वदिप्यासि दाधौ १, ४, ५; ५,
 ९; दाध् ६, ४, ७^३; गाध् १, ४,
 ४^३; वाध् ८, ४^३; ण्वदिप्यावः
 दाधौ ३, २, २१; २२; वदि-
 प्यामः निस् ४, २ : २५;
 ण्वदधाम् आपधौ ६, २०, २,
 २४^३, ११, २; १२, ६; वीधौ ३,
 २७ : १३^३; हिधौ ६, ६,
 २४; २२, १, २^३; अवादीव
 आपधौ २, १२, ४^३; वैधौ;
 अवादिपुः आपधौ ९, १२, ४^३;
 १३, १, ११; वैधौ १६, २ :
 १; २०, २५ : ४^३; दिधौ;
 ण्ववादिपम् माध् १, ४, ८^३;
 वाध् ८, ७^३; अवादिप्यत् निस्
 १०, १२ : १५.
 वादयेत् अय ४८, २०^३, ण्वदा-
 यति आपधौ २१, १८, १०;
 अय ४८, ९; वादयन्ति काधौ
 १३, १, ११; ११; १४, ४, २;
 आपधौ; वादयेत् दाधौ १७,
 ३, १३; १६; दाधौ ११, १,
 ७; २, ६; लाधौ, वादयेत् दाधौ
 ११, १, १९.
 ण्ववादपिप्यति दाधौ ११, २, ९;
 लाधौ ४, २, ८.
 वादयेत् अय ६७, ६, ५; ७०^३, ३,
 २^३.
 दिपिप्यत् वाधुशौ ३, २६ : ५,
 ४, ७४ : २६; गोध् १, ५, २६.
 ण्ववापदीति दाधौ १२, १६, १;
 काध् २, ९, ४.

२उदित, ता- -ताः कय ३, ९, ५;
 अय १२^३, ५, ८; -वम् ७५ २, ७,
 १०; अय २४, २, १; वृदे ३,
 १४८; आमा १७, २८; -ता
 कमा ३, ४, ११^३; -ताः अय
 २६, ४, ६, वृदे ६, १३५८, १२१.
 उदित्(त-अ)नुवाद् -वः वा
 १, १६.
 उदित्वा आपधौ ४, ४, ७; १०, १८,
 २; वीधौ.
 उद्यमान- -नम् वीधौ १७, ४० :
 ५; आसिध् १, २, २ : १३; माध्
 २, १९ : ३; अया ३, ४, ११^३.
 धद्- पाग ३, १, १३४.
 वदत्- -दत्तः आपधौ २२, ६,
 १५; हिधौ १७, २, ६०; वीस्;
 -दणम् आपधौ ५, २, ४;
 वृदे ४, ७^३; -वति निस् १०,
 १० : १३; -दत्तु अय ७२, २,
 २; -दत्तवः वा ९, १^३; -दत्
 आपधौ ९, २, ८; १२, ६, ८;
 वीधौ ७, ४ : ५४४; वैधौ; -दन्तः
 लाधौ २, १८, १२; १२ ४,
 ११; दाधौ १४, १६, ६; काधौ;
 -दन्तम् उत् २, २१^३.
 वदतो- -त्यः दाधौ ११, २, १७;
 लाधौ ४, २, १८.
 वदन्ती- -ण्ती आपधौ ३, ८, १;
 दाधौ ९, २८, १४; वा ११, २८.
 १वदन्- -नात् वा ६, २.
 २वदन्- -नात् वीस् ५१, १९.
 वदन्ति- पाठ ३, ५०.
 वदन्त्य- पाठ ३, १०४; पाग २, १,
 १९.
 वदावद्- पावा ६, १, १२.

वदावदित्- -वी दाधौ ११, १, ५;
 लाधौ ४, १, ५.
 वदि- -दिः अया ३, ४, १.
 वदि-प्रतिवेध- -धः अया ३, ४, १.
 वदितोस् (ः) वा ३, ४, १६.
 वदिप्यत्- -प्यत् दाधौ १०, १४-
 १८, १; कौस् ३८, २५.
 ण्वदध्- -वा वीधौ १३, ६ : २;
 हिधौ २२, २, १५.
 वाद- -वः आपधौ १०, १६, १५^३;
 २१, ११, ११; दाधौ १२, २, १५;
 लाधौ ४, १०, १५; १०, ७, ७;
 १०, २; १६, ५; -दम् दाधौ ५,
 ३, १७; माधौ ९, ८, २; -दाः
 आपधौ २१, १, १६; -दात्
 लाधौ १०, १०, ४.
 वाद्-माज- -नम् लाधौ १०, २,
 ६; वीस् १, २, १९.
 वाद्व- -नम् दाधौ १३, २, २७;
 -नेव दाधौ १७, ३, १४; दाधौ
 ११, २, ७; लाधौ ४, २, ६.
 वादय(त् >)न्ती- -न्यः दिधौ
 १६, ६, २२.
 वादयित्वा दिधौ १६, ६, १५; १७.
 वादि- पाठ ४, १२५.
 वादिष्- ण्वि आपधौ २१, २०, २^३;
 हिधौ १६, ६, २९.
 वादित्-वाद्- -दाः आपध् १,
 १०, १९; हिध् १, २, ४६.
 वादिष्- पाठ ४, १७१; -प्राणाम्
 अय ६४, ४, २; ७०^३, ४, १;
 -प्राणि वाध् १७, २; वाध् १३,
 १; ३; ४; अय १, ११, ४; १७,
 २, १२, ७१, १५, ८; -प्रेः कौस्
 १४, ४.

a) सवा. वदिप्यासि <> उद्यमानम् (वी ३, २, २ लीमा ४, १, १ च) इति पाणे. । b) पांमे. वेप २, २, १ चं.
 वदिप्यासि वेष्मा ७, १, १ टि. द. । c) पांमे. वेप १ उदित्ता वै ४, १२, ६ टि. द. । d) भाष. । e) = मुग-। कएणे
 प्र. । f) वृ. भाष. । कर्पि इति प्र. (वृ. वाक् ६, १, १२) । g) पा. निर्देशः । h) वेप १ द. । i) वाप. (वाप-)

वादित्र-वाद्-न्दे पाठ २, ११,
 ६, विध ३०, १३
 वादि(र>)नी-नी काश्री १७,
 ३, १०.
 वाद्य- फंथम् काश्री ९, १२,
 १०, २०, १, २१, आपथी १२
 २६, २, १३, ३, ३, वीथी ७,
 १५, १६, ८, ३ : १०, वाधुथी
 ३, ६१ ६, वैथी, द्विथी ९, १,
 ३०, -वस्य नाशि १, ४, १२६.
 वाद्य भाषणा(एड-अ)लकार-
 वासस- सासि शंघ २६२
 वाध-शब्द-न्दे विध ९२, १५
 वाद्य(र-अ)क-न्ते काश्री
 १०, १, २१
 वाद्यमान-ना अथ ७१, १५, ६,
 -नेयु काश्री २१, ३, ७.
 वाद्यदत्-न्दि काश्री ७, ११,
 ६१.
 वाद्यक-पाठ ७, ४१, पाठ ७, १,
 १५१
 वाद्यवय-पा ७, १, १५१
 वद्-प्रद-प्रथ √वद् द
 वदि^१ पाठ १, १, ३७, ५, ५०.
 वदि-प्रथ. √वद् द
 वद्भुतक^२ > वाद्भुतक -०क,
 -कानाम् वीथीप्र २८ : १.
 वद्भुतक-वद् वीथीप्र २८ २.
 वधम्- √वद् द
 √वध् वधित या १७, ११^३, वधेयम्
 वीथी ६, ११.
 वधयन् काश्री १८, ११, १,
 ७०, ४, १^४, वीथी ११, ६.

१६^५, १२, ७ ३१^६, १२२^६,
 द्विथी १७, १, ३८^६, फंथवधीत्
 आपथी १७, ३१, ३, द्विथी,
 फंथधीत् काश्री ८, १६, १,
 आपम, अवधिषु फंथापथी १३,
 १, ११, द्विथी ९, १, १०,
 फंथवधी. आपथी २१, २०, ३,
 द्विथी १६, ६, ४१, फंथधी वीथी
 २५, २० : २५, माथी ३, १,
 २८^७, वीथ, फंथविट वीथी १७,
 ४४ १५, जैथी २ २२, आपम
 २, १०, १०, पाठ, फंथवधिभम्
 काथी १५, ३, ८, आपथी ३,
 १४, २, १८, १, १८, वीथी.
 वध्यते अथ २, ४, ५, ६८, ५, ५,
 ७१, १०, २, १६, ३, वधयते अथ
 ७०^८, ७, ११, ७१, ३, ४, ८, १,
 १०, ५, १८, ५, वधेत वाथी
 ३, ३, १, ३३, अथ ५०, ३, ३
 वध- पा ३, ३, ७६, पाठ ५, १,
 ६६, ६ १, १५६^९, -घः आपथी
 ५, ३, २२^{१०}, काथी, अथ फंथ८,
 १०३^{११}, १०४^{१२}, शंघ ३९५^{१३},
 फंथिष २, १^{१४}, २०^{१५}, -धम् काथी
 १५, ७, ६, आपथी १०, २७, ८,
 १८, १, १७, वीथी, -घात् वाथी
 ३, १, १^{१६}, वीथ १, १०, २४,
 विध ५२, २, मा ९, १५, -घाय
 वाथी ३, २, ५, ४५, आपम,
 -धे माथी २, ५, ४, २४, वाथ
 ३२५, ४४०, ४५१, आपम,
 -धेन वा ५, १६, -धेषु वाथ
 २७१ : १०, २७२ : ५, -धैः

या १०, ४२^{१६}.
 वध-कर्मन्- -मैणः वा ३, १,
 ९, १६×४, -मां या ३, ११,
 १७, ११, -मैणः निध २, ११,
 या ३, १०.
 वध-काम- म गोथ ७, ८, १३,
 दान्य ७, ३, १.
 वध-उ^{१७}- -त्र पाठ २, ७, १८
 वध-दास्य-वर्जम् आपथ २, १०,
 १६, द्विध २, ४, १६.
 वध-दन्ध- -न्धी विध ५१,
 ७२.
 वध-यन्ध-पदिहिस^{१८}- -नाम् अथ
 ३, ३, ५
 वध-मोक्ष- -क्षान्याम् गोथ १२,
 ४१.
 वधवा(ध अ)र्थ^{१९}- -धीद अथ
 ३, ३, २.
 वधवा(ध-अ)र्थ^{२०}- -धे निव ७,
 १२ १०, १८.
 वधा(ध-अ)र्थ^{२१}- -हन्ि वाध १७,
 ८.
 वधय- पा ५, १, ६६.
 वधक- पाठ २, ३६.
 वधर^{२२}- -घ. कथा १, ८३^{२३}.
 वधि^{२४}-> पधि माव- -वाव पावा
 ६, ४, ६२.
 वध्या(धि-अ)दिवा- -नी पावा
 १, १, ५६.
 वधय- पावा ३, १, १७, -व्य
 आपथ २, २७, १, १६; विध,
 -१पम् वीथी १७, ४१ : ११,
 आपिथ १, १, ४ : ५, -व्याः

०) माव. १ ०) माव, नाव (वादित्र-). ८) वेप १ द । ८) तु पावम. १ ८) = वृष्यास- ।
 १) म्प । १) पा २, ४, ४३, ४३, ७, १, १५ पावा २, ४, ४३, ७, २, १० परागृह- द । १) सपा. मा १०, ८
 माव ५, १, ५, २६ वधेय इति पागे । २) पागे वेप १ पथी. ऋ १, ११४, ७ टि द. १ १) व्यध- इति पाद्य ।
 १) = १७१- । १) = १११ । १) पाठ ? वधे इति लोप । १) वध. १ ०) उव. < √वै ।
 १) मवादीरे द्ग । १) म्पे वग । १) पा । १) धा. निर्देशः ।

विध ५, १, गौध २७, ३५,
 -ध्यान् आष २, २७, २१,
 हिध २, ५, १३९, -ध्यान् अप
 १, १०, ५, वैध ३, १५, ११,
 -ध्यानाम् आष १, ९, २६, हिध
 १, ३, २७, -ध्वेषु विध ३, १०.
 वध्व-वर्मन्- -सिंघि विध ५, ८.
 वध्व घात- -नेन अप १, २७, ४
 वध्व-यातिन्- > ०तिव्-
 -ध्वम् विध १६, ११
 वध्वमान- नम् श्प ७१, ११, १
 वध्वि- -त्रि अप्ता ३, ३, ८१.
 वध्व (त्रि अ) ध- पाग ६, २,
 ८८०, -ध साध १, १०,
 -धस्य शेषि ३२, ८१
 वाध्व- -०ध आध्री
 १२, १०, १०१, आध्री २४, ६,
 ६, वौध्रीय वैष ४, २, ५०, -ध
 श्प २, १०, ६९, साध १, १०,
 -धम् वौध्री १८, ४१ ६, निव्
 ७, ५, ३५, या ८, २२, -धस्य
 वौध्री १८, ४१ १५१, -धाः
 आपध्री २४, ६, ५, हिध्री २१, ३,
 ७, निव् ४, ८, ५, -धे वृदे २,
 १५५
 वध्वश-अस्य- पा ६, २, ८८
 वध्वश-वत् आपध्री २४, ६,
 ६, वौध्रीय ७ ५, हिध्री २१,
 ३, ७
 वध्वा^१ पाग १ ४ ५७.
 वध्व- पाठ १, ८३, पाग ४, ३,
 ११८, ५, १, १२९, १२०,
 -ध्वम् आप्ता १, ६, ४१, ७, ९,

वौध १, ५, ५, ४, २, १२, -ध्व
 ऋषाम् १, ९, ५, २, २०, ३०,
 आध, आपध १, २, वौध १, ५,
 १८, वैध ६, १३ ६, या २,
 २४, -ध्वनाम् वृदे ३, १४७, ६,
 ५१, ७, १३२, -ध्वम् आसिध
 २, ६, १ ६, ७, ११, १२, काध,
 -ध्व्य आप्तम् १, ६, ९, कौध
 १, ९, ११, शाध १, १५, १५,
 वौध १, ५, २, भाध १, १८ : ५,
 अध १४, २, निध १, १३६,
 अप्ता १, ३, १४, -ध्या माध १
 १३, १७, वैध ३, ४, ७, ५ १,
 १३, -ध्या माध १, ११, १५,
 वैध ३, ३ १, ६, ४ ११, गोध,
 -ध्वी ऋषाम् १, ७, ८, १७, ८०,
 वौध १, ५, १७, हाध १, ११,
 १५, गोध २, ३, २२, हाध १,
 ४, ११, वाध १३, ६०, अधा १,
 ३, १४१
 वाध्व- पा ५ १, १२९, १२०
 वाध्वरु- पा ४, ३, ११८
 वाध्व- -यम् कौध १, ८, २२,
 शाध १, १४, १२, कौध ७२, २०,
 वृदे ७, १२४, -यस्य कौध ७७,
 ४
 वध्व वृद- -नम् आसिध १, ६, १
 ८, -हन् वैध ६, १४ ५
 वध्व ज्ञाति- तिभि वौध १, १,
 २४
 वध्व-नद- -मण वृदे ३, १४९,
 -मवा आसिध १, ६, १ १६,
 -मन्त. शाध्री १२, १४, ११,

-मन्तम् आसिध १, ६, १ : ५
 वध्व-सुदे(ल-ई)क्षण- -जम् वैध
 ३, ३ १, ८ १
 वध्व सुर्वद- -सिंघि वैध ३, ८ ४
 वध्व वध- -धम् शाध १, ८, १२
 वध्व वासत्- -त आपध १, ११
 वध्ववास. संस्पन्-भोव(न>
 नी- -ध्वी श्प २, १०, ८५,
 श्प १४, १.
 वध्व संगम- -ने काध २६, ६
 वध्व(धू-अ)अलि- -लिम् गोध २,
 २०, २, हाध १, ३, १७, -ध्वी
 आध १, ७, ८, गोध २, २, ५,
 हाध १, ३, २०.
 वध्वी(धू ई)वा- -धी कौध ७७,
 १०
 १-२वध्व्य-, वध्वमान- √वध् द.
 वध्वोय- -पाग ४, १, १००, १०४, ७,
 ३, २०.
 वाध्वीय- पा ४, १, १०४, ७, २,
 २०
 वाध्वीयायन- पा ४, १, १००
 वध्वोय- (> वाध्वोय-> ०ध्वीवा-
 यन- वा)
 वध्व- -अ सु १५, ४^m, -ध्वी. वौध्री
 ११, १ : १०, २२, १२ ६.
 वध्वी-> वध्वि-(क>)क- पा,
 पाग ५, २, १८०
 वध्वी-मनद- -शानि कौध ६५,
 ४
 वध्व- > वध्विन्- -ध्री शंघ ३७८
 वध्वि-, कथय- √वध् द
 वध्वा^१

a) वैष १ द । b) तु पाति । c) ध्या^० इति पाठ ३ बलि शोच (ह आध्री प्रत्य) । d) वध्वा इति (पक्षे) भाग्या पाति क । e) तु पागम् । f) पागे वैष १ सुयें श १०, ८५, २० टि द । g) = नदी- । h) वधा श् १०, ८५, ३० शी १४, १, २७ प्रम् वध्व इति पागे । i) विप (कृ) । j) नाप (श्वर-) उप ईत् अ वत् (पाठ ३, १५९) । k) अप्ता : ध् इति पाति, वध्वोय- इति पागा । l) = धर्म-रज्जु- । m) धर्म ३ = धर्म रज्जु- इति BCP MW १ । n) = रोग निरीय- ।

वन् (बच्चा)^१ पाषा भ्वा. पर.
 शब्दे समकौ हिंसावाम् क्वा-
 तामा-ये, तना. आस्य याचने,
 वनणे आथी १, ९, ५१^१,
 वनति अप ४८, ६१, वनति
 माथी ५, १, २, १०१, वननामहे^२
 आपथी १२, १७, १८, वीथी ३,
 १९ ८, १४, ९ ३७, हिथी
 १०, ४, २९, वैथी ११ १६,
 वनवत् आथी ४, २, ३, वीसू
 ५, १, वननेमहि वीसू ५, २,
 अप ४८, १२^३, वननेम, > मा
 आपथी १४, ३३, ६, माथी ६,
 २, २, २१, वाथी
 वत्स ऋषा ७, ३९^४
 वावनत् आपा २, ११, ११^५,
 वावन ऋषा ९, २६^६, वावन्धि
 ऋषा ९, २६^६.
 वनोति आथी ८, १, २, शीथी
 १०, ७, ११, वैताथी, अप
 ४८, ३^१, निप २, ६^१,
 वनुत् या ७, २९^२, वननुत्
 आपथी १२, १४, १५, हिथी ८,
 ४, १७, वनवत् वीथ १, १२,
 ८, शीथ १, २०, ५, वनुताम्
 शीथी १, १४, १८^३, वनुत् वीसू
 ६३, ५^४, वन्वीत् आपथी १०,
 १८, ४^५, माथी २, १, २, १२, ५,
 १, ५, १४ x x, वन्वीत् आपथी
 २२, ५, १२^६, वननुताम्, > मा

या ५, २, ऋषा ८, २८.
 वनवान् आथी ५, १५, २१,
 शीथी, वाव-य ऋषा ९, २६^६,
 वन्यम् > न्मा ऋषा ७, ३३^७,
 वनिष्णे शीथी १, ५, ९^८, वंसते
 शीथ १६, २०^९, वननिपत् शीथी
 १२, १८, १४, १५, वनिषीष्ट
 ऋषा ४, ६९^{१०}.
 वनयन्ति या ६, १४
 वन-> वीथस- -वान् या १२,
 ५^{११}
 वन- -नम् वीथ ४१, १८, -नात्
 या ५, ५
 वनन-कर्मा- -नीणाम् या १४, १३
 वनन-कर्मा(वि-थ)भ्यास- -सेन
 या १४, ३१.
 वननीय-या- -व्यस या ६, २२,
 ३१, -भरय या ४, २६, -या
 या ३, १०, -यानि या ९, ४२,
 ११, ४६
 वनविष्- > वृ-वस- -म या
 १२, ५
 वनि- पाठ ४, १४०, -निम्
 वैताथी ३, २, अथ ५७
 वज- पाठ २, २८
 वन्वत्- न्वन् अथय २, ४^{१२}
 वन्वान, ना- -ज वैथी १२, १४.
 १, -मा वीथी १२, ८ १ २ १^{१३}
 वीथ(व्य->)-या- -न्याय आपथी
 ८, १५, १७, वीथी २४, ३१ ७,

वैथी ९, ८ १३.
 वान्क-वन्ता- - रसाय वैथी
 २४, ३१ : ७.
 वन^{१४} पाय १, ४, ५७.
 रचन(वप्रा)^{१५} - पाय ४, २, ४९,
 ८०^१, १७^{१६}, -नम् शीथी
 १४, २९, ८^{१७}, वीथ ३, ११,
 २८, पाठ ३, १५, ११,
 आसिप, अप १^{१८} ४८, ७५^{१९},
 ११२^{२०}, वैथ १, ६, १^{२०} x x, वनिप
 १, ५^{२१}, १२^{२१}, या ८, ३^{२२}, -नस्य
 हिपि १ : ५, पाषा ६, २, ३३,
 -ना माथी ३, ८, १, ५, १, २,
 १७, आपस १, ७, ९, वीथ,
 या ५, १६^{२३}, -नात् आसिप
 २, ७, ११ ४, अप ७०^{२४},
 ६, ८, वैथ २, ६, १, -नानाम्
 अप ६४, ४, ६, विप ४८, ६^{२५},
 वीथ ३, २६, या ८, ३, १४,
 १३^{२६} १^{२६}, -नानि वीथ १, ५, ५,
 अप ५५, १, २ x x, शीथ, -ने
 आथी ७, १२, १^{२७}, शीथी १८, १,
 ६^{२७}, आपथी १०, २०, ८^{२८}, १२,
 १९, ५^{२९}, वैथीका, ऋत ५, २,
 ५, -नेऽने अप ४२, १, ८,
 -नेऽय या ६, १^{३०}, -नेऽपु शीथी
 ५, ६, ३, काथी ७, ९, ८, आपथी
 वनिप- पा ४, २, १७
 वन ऋषी शीथान्धी^{३१} - (> वान-
 को, वीथान्धीय- पा)

a) या ७, १९, ८, ३ वीथ ४, १३ या ६, ४, ३७ परासृष्ट द । b) स्या वन्ते (तै २, ६, ९, ८ तैसा
 ३, ५, १०, ५ व) <> वनुताम् (नि ४, १३, १ पाषा १, ९, १, १९ व) इति पाषि । c) पाषे वैप १ वनासहे तै १, ६, ४, ३
 टि. द । d) पाषे वृ १९०६ वृ द । e) पाषे वैप १, २५२९ ० द । f) या इच्छानो इति । g) स्या
 हिथी १७, २, ४० इक्षिण्यवन्ति इति पाषे । h) स्या वी ९, १, १४ प्रवृ वसिषीय इति पाषे । i) पाषे वैप १
 वनणे ऋ ६, १६, २८ टि द । j) वस । k) वैप १ द । l) = अग्नि-वान्मा- । m) वस (वैठु
 निवासशरो अयवावद) । n) वृ १०६० टि द । o) विशेषे टि द । p) वृ पायम् । q) = उदक ।
 r) = अग्नि । s) वनाधमम् इति ऋ । t) = आदित्य अग्नि इति वादक । u) पाषे वृ १९६ । द ।
 v) स्या ऋ ९, १४, २ प्रवृ वनम् इति पाषे । w) वरुथी इति पाषा ।

पाग ४, २, १७.
 वन-वागिन्- -मिनौ या ३, १४.
 वन-चर- -रः वैष १, ७, ३.
 वन-धान्य- -न्वेन द्विपि २० : ६.
 वन-धिति- -तिः कौष १, ५, ८१.
 वन-पर्वत- -ताः अष ६४, १, १०.
 वन-पर्वतानु- -नुषु अष ६४,
 १, ८.
 वन-प्रतिष्ठ- -ष्टः वौष ३, ३, १९.
 वन-प्रस्थ- -> वानप्रस्थ-
 -स्थः वीष २, ९, १७; द्विपि २० :
 ४, वाष २, १; २१, ३२; आपष;
 -स्थम् काशीं २६ : ७१^०; द्विप
 २, ५, १०-१०^०; -स्थस्य वैष ५,
 ७ : १३; वाष ६, २०; आपष
 २, २२, ६; वीष २, १०, ७; ३, ३,
 १; द्विप २, ५, १३६; -स्थाः
 वैष १, ७, १; -स्थान् वैष
 २, ४, ३; -स्थानाम् वाष ६,
 १९; -स्थेभ्यः आगिपि १, २,
 २ : ३०; वीष ३, ९, ६; माष्ट
 ३, ११ : ५; द्विप २, २०, १.
 वानप्रस्थ-धन- -नम् मिष
 १७, १५.
 वानप्रस्थ-वत् वाष २१, ३३.
 वानप्रस्थ-विधि- -धिम्
 आगिपि २, ७, १० : १.
 वानप्रस्थ-वत- -वम् आगिपि
 २, ७, १० : १६.
 वानप्रस्था(स्थ-आ)श्रम-
 -मेषु वैष ३, ५, ११.
 वानप्रस्थ- -स्थम् आपष
 २, २१, १^०.

वन-माला-विभूषितो (त-उ)-
 रस्त- -रकम् विष ९७, १०.
 वन-राशि- -रिपु अष ५८^३, २, २.
 वन-वास- -सम् वीष ३, ३, २२;
 -सात् शंष १६१.
 वन-नाय- -न्यः या ५, ५.
 वन-स- पा ४, २, ८०.
 वन-सत्- -सदे वीषी १०, ५० :
 १४; पाण्ड ३, १५, ११.
 वन-स्य- -स्यः वैष १, ६, ५; २,
 ७, ३; -स्यस्य वैष १, ८ : १४;
 वैष २, १, १; ९, ७; -स्थानाम्
 शंष ५३; विष ६०, १६.
 वना(न-आ)न्त- -न्ते अष ७०^१,
 १९, २६.
 वना(न-आ)श्रम- -मम् वैष २, १,
 ३; २, ६; ३, ५; ९.
 वनाश्रमिन्- -मी वैष २, ४, ४.
 वना(न-आ)श्रय- -न्यः मिष ९४, १.
 वनानि- -निनः आपशी ५, २३,
 ११^०; कष ३, ७, १०.
 वनिल- पा ४, २, ८०.
 वनो(न-ओ)पधि- -धिभिः वैष
 १, ५, ५
 वन्य-न्वा- पा ४, १, ४६^१, ८०^१;
 पाग ४, २, १५^१; -न्म्य वीषी
 १०, ४० : ११^१; -न्म्य शंष-
 १५९ : ४; -न्म्याः वाष ३, ४५;
 -न्म्यात् वैष २, ४, ३; -न्म्याभिः
 वीष ३, २, १५; -न्म्यैः वैष २,
 ४, ३; ३, ५, ७.
 वानेवक- पा ४, २, ९५
 वना(न्य >)न्वा- -न्वा

वीष ३, २, १५^३क.
 वन्य-वृत्ति- -त्तिः वैष ३,
 १४, ५.
 वन्यो(न्य ओ)पधी- -धी.
 वैष २, ४, ५; -धीभिः वैष २,
 ५, ४.
 देवन- (>वालायन-वा.)पाग ४, १,
 ११०.
 वनन- प्रष्ट. ✓वत् द.
 वनस्- -नः अष ४८, ८८^१;
 -नता आशी ८, ७, २४;
 शशी १०, ९, १६; १८, १५, ३.
 वनर-गु- -गु- अष ४८, ८३;
 निष ३, २४; -गु या ३, १४^१क.
 वनर-नृप- -नृप वीषी १८, २८ :
 १६^१.
 वनर-पद्- -पदः उष ६, ४, ७५
 ३, ४९; -पदम् शषा ४, ८६.
 वनस् पति- -पाग ६, २, १४०^३; ३,
 १०८^३; -तयः आशी १, ११,
 ७^१; शशी ४, ११, ४; आपशी;
 वीष १, ५, ५४४; वैष २, १७ :
 ५; -पतयः वीषी ११, ९० : ८;
 -पतये शशी २, २६, २; काशी
 ६, ८, १७, १८; १५, ४, ८; आपशी;
 -तिः आशी ३, ६, १३^१; ४,
 ११, ५; शशी; आपशी १०,
 १०, ६^१; वीषी ६, ५-२३^१; २,
 २१, ९ : १८^१; वीषी १२, ६ :
 १२^१; द्विप १० २, १३^१;
 शष २, १, १३^१; सुदे १, ६६^१;
 १०९^१; ३, २६^१; २७^१;
 सुष १, ३६३, ३६६; २, ४३१;

a) वैष १ द. । b) उत. उप. वर्नरि क्त. । c) = कुीपाश्रमिन्. । d) र्वाधे अण् प्र. ।

e) = [उपवाटा] आश्रम विशेष. । f) सवा. स्थय <> स्थयम् इति पाठे. । g) एत. ।
 h) = वन-प्रस्थ. । i) नाप. । j) अर्थः ? । k) द्व. पाग. । l) = वृत्ति-विशेष. ।
 मस्पेदमीषः अण् प्र. । m) वत. । n) = धन. । o) = स्तेन. । p) विशेषः द्वि. द. । p) = सवा.
 वै १, २, ३, ३ । माशी २, १, २, १६ द्व वानप्रस्थः इति पाठे. । r) = [नयनमरणा-] धमि.

विष ५२, आ ८, १६, -तिना
 आश्री ३,६,९^०, वाठश्री ६८,
 वीश्री १५ ३४ ६^०, १९, ५
 १४^०, २५, ३२ ३०, -तिभि
 वाचूश्री ३, ४० ४, ४, १८
 ७, आपम, -तिन्म आपश्री ७,
 २८, ४x४, वीश्री, वाचूश्री
 ३, २४ ८, ४, १०x४^२, १५,
 वगृ ५४, ५, वाचू २४, ६, वैशू
 ३, ७, २०, विष ६७, ९, -तिम्
 आश्री ३, १, १२, शीश्री ५, १५,
 ६x४, आपश्री ६४, ७, १०,
 वाठश्री ५३, वीश्री २७, १६
 ९, माश्री १८, ५, २९, ५ २, ८,
 १४, वाचूश्री ४, ११ १, वाश्री
 १६, ७, १३, ३ २, ६, ६१^०,
 आमिशू २, ७, ९ १०, आपशू
 ९, ३, माशू २, ३१ १, माशू
 २, ४, १०, वैशू ५, ५, १८, हिशू
 १, १६, १३, हिष १, ५, १४,
 आप २७१. २, वृदे २, १५०,
 ३, २६^०, -तिपु आपश्री १६,
 ३०, १^०, वीश्री २४, २१,
 ३, गाश्री, वाचूश्री ३ १२
 ८, १९ ११, २४ २, ४,
 २९ २१, आप ७२, ३, ९,
 -वीशू ऋश्री ६, १४, १८, ९,
 ५ २, आपश्री, वाचूश्री ४,
 ११ १४, १५ ५९^० ७,
 पाशू ३, ४, ८, वगृ २, २,
 ३-८, आप १०, १, १४, शष
 ११६ १४, २२, विष ६३,
 २८, वृदे ७, ६२, शुआ ३,
 १४१^०, -तीनाम् आपश्री

१५, १४, १०^०, १६, २०, ४,
 वीश्री १०, ५६ २^०, १५,
 २० ६, माश्री, वाश्री २, १,
 ५, ११, हिश्री ११, ६, ५०,
 कौशू ७, ११, -तंते आश्री ३,
 १, ९, ११, २३, ९, ५, २^०,
 शश्री, आपश्री ५, २, ४^०, ७,
 २, ८^०, वीश्री ४, १ २४^०, २०,
 २५ २२^०, माश्री ७, २, २^०,
 माश्री १, ८, १, १२^०, वाश्री १,
 ६, १, १३^०, वैश्री १०, २
 २^०, हिश्री ४, १, २४^०, आपम
 १, १३, ७^०, कौशू १, १, १२^०,
 वाशू १, १५, १६^० ५, ३, ४^०,
 पाशू ३, १५, २०^०, वीशू १, ५,
 १६^०, ८, २^०, वगृ १, १०, ४,
 आपम ३, ४, विष ९८, २१, वा
 ८, १६^०, १८, -ते शश्री ४,
 १६, ५^०, ५, ११, १८, वाश्री,
 आपश्री ७, २५, १४^०, २७, १^०,
 २१, ३, १२ ४, २, वीश्री १५
 ३४ ६, २०, ३० ११, १३,
 २५, ३२ ३१, माश्री, वैशू १,
 १८ ६, आपम २, २४, ९, हिष
 २, ५, १७४, कौशू ९, ४, ५५,
 -वी आपश्री १३, २१, ३^०,
 २४, ४, १८^०, हिश्री ४, ३,
 ३०, कौशू १, ९, १२, शंशू १,
 १५, १६
 वानस्त्य, त्या^० - ऋशू
 आपश्री १, १६, २, १९, ८, २, ३,
 १४, १०, १०, ४, वीश्री, गाश्री
 २, १, १५, १६^०, हिश्री १, ५,
 ४८^०, शश्री १, २, १२, -त्वम्

वीश्री १, ६ १४^०, शश्री
 शष १, २३, ३४x४, -त्वया
 आपश्री ९, २, ७, माश्री
 ९, ३, १०, वैश्री २०, ५
 १, हिश्री १५, १, ४५, -तृत्वा
 आपश्री १, १७, १, माश्री १,
 १८, १०, माश्री १, २, १, २०,
 वाश्री १, २, ४, १३, हिश्री १, ५,
 १, वगृ ७, ५६९, -त्वा आपश्री
 ५, २, ४, २७, १^०, वीश्री
 २, ६: २०, १२ ३, माश्री,
 -त्वम् आपश्री ५१, ४, १०, २,
 २७, ८, गाश्री, -त्वानाम् वगृ
 १६, ८^०, -त्वानि आपशू २, ६,
 ६, शष ६, १३६, -त्वानि
 वीश्री २, ६ २०, -त्ये वीशू
 १, ५, २५^०, वगृ २ १, १९,
 २४, -त्येन माश्री २, १, २, १४,
 -त्येवम् कौशू ७२, ५^०, -त्येषु
 आपम १, ४, ८^०
 वानस्त्वया दुन्दुभि-
 देवता-> त्व- -त्ये वगृ ५
 २१
 वानस्त्वया (ल श)
 शत्व-देवता-> त्व- -त्वम्
 वगृ ३, ६
 वानस्त्विति प्रभृति- -तीनि शत्वौ
 १५, १ २८
 वानस्त्विति-वत्- -त्वम् वगृ
 ७१, १५
 वानस्त्विति वान- -वान् वीताश्री
 ३०, १५
 वानस्त्विति वान- -स्त्व^० वगृ ६,
 २, २, २०, ३, ३

द) = [प्रवरगत] वानस्त्विति श्रैव । ष) = अग्नि- । ङ) पश्चि वैप १, १०-७७ अ द्र । ट) पश्चि वैप १, १५-८७ इ द्र ।
 ट) = [वगृवाताह] वृष १ । ज) वैप १ द्र । ड) पश्चि वृ २१३९ पु द्र ।
 ङ) 'त इति पाठ' यनि गोव (त आपश्री १०, १०, ४) । ञ) = शार्क-वात- । ण) पृथक्तिद वसा इति पाठ ? यनि गोव ।

वनस्पति-वृक्ष वैश्री १०, २० : ५.
 वनस्पति-सव^० - वै वैताश्री
 ४०, १.
 वनस्पति-स्थिरकृत्य - कृत्यैः
 वाश्री १९, १, २५.
 वनस्पतिरिवष्टकृद्-अन्त-
 न्ते पाठ ३, ८, ८.
 वनस्पति-स्थिरकृत्य-सूक्तवाक-
 प्रैष- येयु आश्री ३, ४, ११.
 वनस्पति-स्थिरकृदि(रु-द्वड(>))
 व- वम् वाश्री ३, १, २, ३३.
 वनस्पति-होम- -मम् वाश्री
 ३, ७८ : ३; -माद् आश्री २०,
 ११, १५.
 वनस्पति(ति-श)म्- -न्तम्
 वाश्री १९, ४, ७.
 वनस्पति(ति-सा)दि- -रिपु
 पा ६, २, १४०.
 वन-स- प्रम्. रवन- द.
 वननाथ^० पाठ ३, १, ६.
 वनायु- पाठो २, १, ४.
 वनाश्रम- प्रम्. रवन- द.
 वनि- ✓वन् द.
 वनिता- (> वनितीय-) विनित,
 ता- टि. द.
 वनिन्, वनित- रवन- द.
 वनिष्टु^० - ष्टुम् आश्री ५, १०, ११.
 वनिष्टु^० - पाठो २, १, ३६; -ष्टु
 मीत् १०, ७, १७; -ष्टुवा वाश्री
 ३, ४, ५, १२१; -ष्टुम् आश्री
 ३, ३, ११; आश्री ६, ९, ४;
 आश्री- ष्टुद् वाश्री १८, ४० :
 २१, २४; -ष्टोः आश्री ७, २४,

१०; गौश्री २०, ३० : १५; भाश्री.
 वनिष्टु-जावती^० - नी वाश्री ६, ७,
 १०.
 वनिष्टु-संनिधान- -नात् मीत् ९,
 ४, ११.
 वनिष्टु-सव- -नेन शौश्री १८, ४० :
 १२, १४.
 वनिष्टु- पाठ ४, २.
 वनीयस्- ✓वन् द.
 वनीयाहन^० - नम् वाश्री १६, ६, २२;
 -नात् वाश्री १६, ६, २५;
 -ने वैताश्री २८, ११.
 वनीयजतात् अत्रा ३, ४, ५.
 वनितुस्^० - नुपः आश्री १४, २,
 १३, वीश्री १७, ३ : ५; द्विशी.
 ✓वनितु > वनितु^० - वनित^०
 माश्री १, ३, २, १२.
 वनितु^० - नुपः आश्री १४, २,
 १२, ४, २; या ५, २; वनितु^०
 आश्री १४, २, ३; द्विशी १५,
 ७, १६; अत्रा ५, ६
 वनितु^० - व्यतः या ५, २१.
 वनितुवा वाश्री ३, ३, ६, ५२.
 वनीपथि- रवन- द.
 ✓वन्दु पावा. म्ना आत्म. अग्निवाद्-
 नस्तुत्यो, वन्दुत्वे अप ४८, ९६;
 निष ३, १४^१; पन्दु शौश्री ४, १८,
 ५१; वन्दुत्वे आग्नि ३, ८,
 २०९; वीवि १, १५ : १९; द्विपि
 १५ : ७; वीत् २०, १०; अष
 ३, १७, वन्दुस्व वाश्री ३, ७,
 १५; शौश्री ५, १४, २०; ६,
 १०, ११; आश्री.

वन्दु विष १, ४४; वृद् ४, २^१
 वन्दु- पाठो २, २, १५८.
 वन्दु- नम् विष ३२, १४;
 -नात् वैष २, ११, ५; -नात्
 या ४, १७१.
 वन्दुत्^० - नम् आग्नि ३, १०,
 ४ : १.
 वान्द- -न आश्री ३२,
 ११, २; आश्री २४, ७, ६; ७;
 वीश्री १८ : २; द्विशी २१, ३,
 १०^२; वैष ४, ३, २१^३; -ना
 ष्टम २, १०, १००.
 वन्दु-वत् आश्री २४, ७, ६; ७;
 वीश्री १८ : २; द्विशी २१, ३,
 १०^१; वैष ४, ३, २१^२.
 वन्दु- पावा ३, ३, १०७.
 वन्दुमात्, वा- -नः आश्री २, १७;
 १५; ३, ७, १५; आश्री;
 -नाः द्विशी २, ७, ३७; ४९;
 आग्नि ३, ११, २ : ११; ३ : २६;
 १६.
 वन्दुत्^० - पा ३, २, १७३; -वत्
 आश्री ५, ५, ८; वीश्री २, १४ :
 ६; माश्री; -वत् अत्रा ५, २९;
 श्रा ३, ७३; -रोः^० चाश ७:
 ६; ८ : ८.
 वन्दित- -ते या ५, ४, १५७.
 वन्दित्य- -न्यः या ७, १६; ८, ८.
 वन्दित्वा आश १, २७, १०; द्विष
 १, ७, ३५.
 वन्दित- -न्दित्वात् अप-२१, ६, ६;
 -न्दितः अ १९^१, ४, ३; -न्दी
 शंघ २०१.

a) = वृक्ष-विशेष- । b) वस. । c) पामे. शोधय वैष १, २४०६ b द. । d) वैष १ द. ।
 e) द्वि. (वेद. P.W. प्रम्. प्रयोगे पदे इति) । f) = कर्म-विशेष- । < ✓वृह इति P.W. प्रम्. ।
 g) विष. (वननीय- अत्रदान-) । h) द्विः । i) तथा. तैत् ३, ७, ५, ५ आश्री २, १८, ९ अनुविद्य
 इति पामे. । j) पामे. वैष १ वनितु^० श ६, ५, ४ टि. द. । k) या. अर्वाणां वृत्तिः । l) तस्य शाश्वतः पाठः ।
 m) व्यप. । n) वाद् इति पाठः । वनि. शोधः (तु. आश्री, प्रम्.) । o) पदन्वय इति पाठः । वनि. प्लोषा-
 वैष-प्र-४

घन्त- पा ६, १, २१४, - $\sqrt{\text{घन्त}}$
 आध्री ५, १८, २, आध्री १४,
 २८, ६, माध्री, वा ८, ८६,
 शुभा २, ४०, - $\sqrt{\text{घन्तामू वैध २}}$,
 ११, ५

घन्त- पाठ २, १३

$\sqrt{\text{घन्तुर}}^*$ - २म् वीध्री १८, २४
 १५.

$\sqrt{\text{घन्तुर}} > \text{श-शु}^*$ - सु: कप्र ९,
 १६१

$\sqrt{\text{घन्तुरे-प्ला}}^*$ - श: शाध्री ८, १९,
 ६१

$\sqrt{\text{घन्त}} > \text{न्य-}$ पाठमो २, ३, १^०,
 - $\sqrt{\text{न्या आसिष्ट ३}}$, १०, १ ७,
 वीधि ३, ५, २, अण ६९, ५, १,
 वासि २, ११३, नाशि २, ८, २८,
 - $\sqrt{\text{न्यामू आसिष्ट २}}$, ७, ६ ४

$\sqrt{\text{घन्त}}^*$ - २वन- ६.

घन्त- व वद- , वन्तान- $\sqrt{\text{वन्त ६}}$.

$\sqrt{\text{घन्त}} > \text{घवा}$ भावा भाा लम. वीज-
 सतानेलेदनेऽपि, वपते काध्री २,
 १, ९, आध्री ५ ४, ९, २०, १,
 ९, वीध्री २, १२ २६x, वीध्री,
 वा १२, २० $\sqrt{\text{घन्त}}^*$, वपति व धी
 ५, ३, १७, ७, २, १३. १७, ३,
 ८ २१, ४, ४, आध्री १६, १९,
 १३, वीध्री २, ८ ७, १०, २५
 १३x, माध्री ५, १३, १५^०,
 पाठ २, १, १८ $\sqrt{\text{घन्त}}^*$, वपन्ते
 आध्री २१, १३, ४^०, आसिष्ट
 १, ३, २ २०, वपन्ति वाध्री ४,
 - १९-४५, ११५: १२, आगम
 वपति वीध्री १७, ४० ८^१,
 - $\sqrt{\text{आध्री २}}$, १, ७^१, आठ १, १७,

१६^१, आसिष्ट १, ३, २-१६^१,
 वाध्री ४०, १२^१, माध्री २, १९-
 ७^१, माध्री १, २१, ७^१, वाध्री ४,
 १७^१, २, ३, हिष्ट १, ९, १६^१, जैष्ठ
 १, ११ २१, वपे वीध्री २, ८
 ७^१, वचामि आध्री २, १, ६,
 आठ, वचामि आध्री २, १, १^०,
 आठ १, १७, ७^१, वीध्री २, ४,
 ८^१, माध्री १, २१, ३^१, ६, १४^१,
 वाध्री ४, ८^१, जैष्ठ १, ११: १०^१,
 वचामि आध्री २, १, ४, ५, पाठ २,
 १, ६^१, वाध्री ४०, ११, वीध्री ५४,
 १, वचामि वाध्री ४, १९ ४४,
 आध्री २, १, ३^१, आठ १, १७,
 १०^१, वीध्री १, २१, १२^१, शाध्री
 १ २८, १५^१, पाठ २, १, ११^१,
 आसिष्ट २, २, ५ १३^१, वाध्री
 ४०, ९, ११, वाध्री ४, १२^१, हिष्ट
 २, ६, १०^१, वचामि आध्री
 २२, २८, ६, वीध्री १८, १९ ६,
 हिष्टी २३, ४, ४६, आगम,
 वचामि आसिष्ट ३, ८, २ १८,
 वीधि १, १५ २८, वपे वीध्री
 २१, ४, १८, आध्री १६ २०, १,
 वीध्री २२, ६ ३. माध्री, वपे वीध्री
 आसिष्ट ३, ९, २. ४, वीधि १
 १ १३, आध्री १, १०, ७, २,
 १, ८, हिष्ट, वचामि वाध्री १७,
 ९, आध्री २, १३, ६, वीधि
 वापयते आध्री ४, १, ४, ५,
 ८, ४, १, १०, ५, ६x, वीध्री,
 वापयति शाध्री ३, १, २, वीध्री
 ३, ३, ५५, वीध्री ३१, १, वाप-
 यते वीध्री १७, ४०-१२, हिष्टी

१६, ५, ११^१, आसिष्ट ३ ६, २-
 १, वीधि १, ९-११, हिष्ट
 २, ३, ४१, वापयन्ति वाध्री
 ६, १०, ०; शाध्री १८, २४,
 १९, वापयते हिष्टी १३, ७, ३०,
 शाध्री ९, २, २१, वापयते
 आध्री २, १६, २४, वीध्री २१,
 २: ८x, वीधि, वापयते
 आध्री ८, ८, २०, १९, ९x,
 शाध्री, वापयते शाध्री ४, ४,
 १८, ९, २, २५, आसिष्ट ३,
 ६, २: ३, वीधि १, ९ १२^१,
 हिष्ट २, ३, ४२, वापयते
 शाध्री ८, ८, १४.

उस, सा- -सम् माध्री ६, १, ६, ३,
 वीध्री २८, २९, अण ६२, ३, ४,
 - $\sqrt{\text{सा आध्री १६}}$, २०, २,
 हिष्टी ११, ६, ४८, -सा ४ १८,
 ४, वीधि १, ५, ५१, -सामि
 हिष्टी ५, २, ४८, -सं वाध्री ६,
 १२, पा ४, ३, ४

उस-केवा- -वा. जैष्ठ १, १८
 ६, - $\sqrt{\text{सम् जैष्ठ २}}$, ४ ७, -शेन
 माध्री १, २२, २

उस केवा-सु- -सुम् वीध्री २,
 ८-९, ६, २ ६१, वीध्री ५४, ४

उस माध- पाठ २, १, ३१
 उसा(त-श)भा- - $\sqrt{\text{सम् वीध्री}}$
 ६, २-३: ४

उसो(त-श)व(घ>)धा-
 क्षाम् वीध्री ६, ३ ५^१
 वप्या आध्री ८, ८, २२, वीध्री
 वचामि आध्री २, १, ८, पाठ
 ४०, १५, माध्री

a) वैप १ द । b) < $\sqrt{\text{घ-घ}}$ । c) पा ६, १, १५ परासुष्ट द. । d) वैप १ वपते
 न १, १६, ४४ टि द । e) पाठ १ निर्वपति इति सत्सुं टि । f) पाठे गोधय वी ८, २, १७ वपति इति द ।
 g) पाठ हिष्टी १६, ५, ११ वापयते इति पाठे । h) सपा वी ६, ६८, २ वपन्तु इति पाठे । i) = सपा वीमा २,
 ७, १७, २ । वी ६, ६८, २ वृ वपत इति पाठे । j) वप ।

उप्य^१-^१व्यानाम् काथी २५, १३,
१९.
उप्य-परिवप्य-^२प्यौ वाण ५३,
१२.
उप्यमल,मा-^३नम् वीथी १७,४०:
८; आमिष्ट १, ३, २: १६;
-नाम् वाण ४०, १४; -नायाम्
माथी १, २, ३, १०; -नेपु वैथी
१२, ६: ४; हिथी ६, ८, ८; १०,
१, ३२.
वप-^४वाग ३, १, १३४.
वप-^५वद् वीथी २५, २०: २;
वाण ३१, २१; -पन्तम् आपण
१०, ७; माण २, १९: ६;
-पन्ता वा ६, २६११.
वपन-^६नम् वाथी ४, ७, ११; ५, २,
१३; ११, २६; ७, २, १९; कप;
-नाम् माथी ६, १६, २२; -ने
वीथी २२, ६: ३; वाण ४, २१.
वपन-काल-^७ले आपथी २२,
१३, ४; हिथी १६, ५, ११.
वपन-प्रवाद^८-^८दा: आपथी १८,
२२, १०; हिथी १३, ७, २०.
वपन-मेसलागिनदण्डधारण-
वत-मैस्राधरण-^९व्यानि वैण ६,
१०: ४.
वपन-मेसला-दण्ड-मैस्राधर्या-
वत-^{१०}नामि विध ५१, ५८.
वपन-वत-नियम-लोप-^{११}पः
वीथ २, १, ११.
वपना(न-अ)दि-^{१२}वीथाम् वाप
२०, १७.
वपना(न-अ)नुपन-^{१३}द्वाद पाण
२, १३, ५.

वपना(न-अ)न्त^{१४}-^{१४}नतम् वैथी
१२, ७: १६.
वपित्वा वीण ५, ३, २६.
वपन्त,पथा-^{१५}नम् आमिष्ट ३,
६, २: ३; वीपि १, ९: १३;
-नवा विध २२, ८; ३०, ३१.
वपु^{१६}-^{१६}नतः काण ४०, १२;
माण १, २१, ७; वाण ४, १७;
९, ३; हिण १, ९, १६;
-नतः आप १, १७, १६;
पाण २, १, १८१; आमिष्ट १,
३, २: १६; -साम् हिण १, ९,
१६; -नतः वीथी १७, ४०:
८; आपनम् २, १, ७; माण २,
१९: ७; वैण १, ११: २१; -प्ये
आपण १२, ३; हिण १, ९,
११
वपन्वा आमिष्ट १, ३, २: १८.
वप^{१७}-^{१७}पाठ २, २७; पाण २ ४, ३१.
वप्रा^{१८}-^{१८}वमा-वद् काथी १८, ५, ४.
वपि-^{१९}पाठ ४, ६६.
वप्यत्-^{२०}प्यन्तु माथी १४, ४, ४;
लाथी ५, ८, ४.
वप^{२१}-^{२१}वः पा ५, १, ५.
वापन-^{२२}नम् आथी २, १६, २६;
वैथी ८, १४: ८; हिथी ५, २, ७०;
५, २८; ६, ४; आमिष्ट २, ७, १:
८; हिथ १, ३, ३८; -ने वाण
४, ७, ४२.
वापना(न-अ)दि-^{२३}दि माण १,
२२, २२.
वापवित्वा आपथी १५, २०, ३: २१;
वीथी ९, १९: २४; माथी,
वापविष्यमल-^{२४}नः वीथी १७,

४०: १३; २४, २१: १३;
आमिष्ट १, ३, २: २२.
वापि-^{२५}पाण ३, १, ७०८.
वापित-^{२६}ना: आपथी २, १०.
वाप्य-^{२७}पा ३, १, १२६; -प्यानि^{२८}
वीथ १६, २३; -प्यै वीथ १६,
२४.
व-पर-^{२९}व-^{२९}द.
वपा^{३०}-^{३०}पाण ३, ३, १०४; -पया
वाथी ४, १४, १७; १६, ७, ४;
काथी ६, ६, २२; २५, ७, २९;
आपथी; -पा आपथी ३, ४, ४;
आपथी २, १८, १५; २०, १८,
११; वीथी १५, ३०: २४; २५;
२८, ७: ९; माथी; -पा: वाथी १६,
७, ४; १५, ९; आपथी २०, १८,
१५; १९, २; ४; २५, १३; काथी ३;
-पानाम् काथी १०, ५, ४; काथी
१२, ६, १६; २२; नूआपथी
२०, १९, ३; ५; काथी ३;
-वानाम्-पानाम् काथी २६:
६; -पानि: काथी २०, ७, १८;
आपथी १८, ६, ८; ९; ७, १३;
वीथी; -पान्य: वीथी १५, ३१:
१७; -पान्याम् वीथी १२, ७:
२२; १८: ५x४; -पाम् काथी
३, ३, ११; काथी ४, १७, १३;
१८, ५; २०, ५; ६; ५, १७,
४; १८, ४x४; काथी; -पान्या:
काथी ५, १८, ९; ६, ११,
१२; काथी १६, १, ४२; आपथी
७, १२, ९; १९, ३x४; वीथी:
माथी ७, १४, १६; माथी १,
८, ४, १७; काथी १, ६, ६, १५;

a) विप. > नाप. (वीथिवादि-). कप्य प्र. उत्स. (पा ३, १, १०९)। b) वप.। c) वीथ्या इति जीव.।
d) = वापित-। e) वप. वतः <> वपन्त (श्री ८, २, १७ व) <> वपन्ता इति व. पाठे.। f) वप्यत् इति सुप्र.।
g) = शकदाधर-गुण्ड-। h) = वपन-पन- (कण्ठ, लनीहरण-).। i) = वप-। कपिधरेणे वप प्र.।
j) दारिलः यक. आमानि, वपिः इति। k) वप १६.। l) वप. वपायाः होमात् <> वपाहोमात् इति पाठे.।

-वापाम् आधौ ३, ४, १, ५, १,
 ६, १४, १०, शाधौ, मीस् ११,
 २, ५१^०, -वापै काधौ १, ९,
 १६, ६, ६, २२^०, वीधौ, -पासु
 शाधौ १७, ७, ११, आधौ १२,
 २, ३, ८, ५, २०, १८, १५, वीधौ
 यपा का(व>)ला^० - ला द्राधौ
 १, ४, १.
 यपा म्- हा माधौ ५, २, ११,
 ३९
 यपा(वा आ)दि- दि वैधौ १७,
 १०: १२.
 यपा-देश- शै हिधौ ७, ४, १२
 यपा(वा अ)म्- म्ते काधौ २०,
 ७, २६, २१, २, ७, २२,
 ३, ३०, २५, १०, ४, ऊधौ ७
 १, २६. ४.
 यपा(वा अ)म्- म्ते काधौ
 ६, ११, १७.
 यपा-वल्- -लाभि वा १४, ७
 यपा पशु-पुरोडाश हविस्- -विपाम्
 माधौ ५, २, ११, ४०
 यपा पुरोडाश पशु- -शुनाम् काधौ
 १२, ६, १२, ७, २१
 यपा-भाजन- नम् बाधूधौ ३,
 १५ २.
 यपा(वा-अ)निघाल- नम् मीस् ९,
 ४, २१.
 यपा-मार्जन- ना वैताधौ २४,
 ११^०, -नात् वैताधौ ३०, ११
 यपामार्जन(न-अ)म्- म्ते
 काधौ ९, ८, १७, -ते काधौ

८, ९, ६, १५, १०, ९, १२,
 ३, ७, वैताधौ १८, ७
 यपा(वा-अ)धन्- > यपायनिम्-
 नी वैधु १, १८: १४
 यपा ख्य- -पम् काधौ १३, ३, ५
 यपा(वा-अ)धे- -धे काधौ २०, ७,
 ७, कप्र ३, १०, १^०
 यपा वल् काधौ ६, ८, ७, १०,
 आधौ २०, २१, ४, वैधौ १०,
 १८ १०
 यपा-वल्- यताम् शाधौ १६ १५,
 ९, आधौ २०, २५, १२,
 हिधौ १४, ६, २४, -वन्ताम्
 वीधौ २, ७: ३^०
 यपा-ध्रपण^०- -गात् मीस् १०, ७,
 २२, -गे वाधौ ३, २, ६, ४५
 यपाध्रपणी- -णी आधौ ७,
 १९, ६, २०, ४, २१, ३, वीधौ,
 -णी वीधौ ६, ३४ ६, १२,
 ५ १५x४, माधौ ५, २,
 १२, २४, वाधौ, -णीनाम्
 आधौ १४, ७, ५, हिधौ ९, ८,
 ३७, १३, १, २४, -णीयाम्
 काधौ ६, ५ ७, २५, आधौ ७,
 १५, ७, १७ ४, काठरी, माधौ
 ७, १५ ११^०, -णीम् वीधौ २,
 ८ ३, २१, वैधौ १०, १५
 २, -प्य आधौ १४, ७, ४,
 हिधौ ९, ८, ३६, १३, १, २४,
 -ण्या माधु २ १६ ३, हिधु
 २, १५, २ ६, -ण्याम् माधु २,
 १६ १०, -वयो माधौ ७, ६,

८, -वयो शाधौ ४, १८, ९,
 काधौ ६, ६, ११x४, आधौ
 यपाध्रपण्य (नी म) नुप्र
 हरण- -नम् वैधौ १७, १० १०^०
 यपा-स्नान- -ने माधौ ५, २, १२,
 ४२, वाधौ ३, ४, ४, २१
 यपा होम- -म् हाधु ३, ४, २६
 -मम् माधु २, १ ११, -सात्
 आधौ ४, १०, १२, काधौ २०,
 ७, १०, वैधौ १०, १६: १२,
 हिधौ ४, ४, २०^०
 यपाहोमा(ग-आ)ज्यहोम-
 -मान्याम् वैधु १, ३ २७
 यपो(वा-उ)द्रमत्प- -नम् हिधौ
 ४, ४, २०^०.
 यपो(वा उ)हरण- नम् आधौ ७,
 १९, ३^०, २१, २, माधौ ७,
 १४, १६^०, माधौ १, ८, ४, १७^०,
 वाधौ १, ६, ६, १५^०, वैधौ १०,
 १५^० ६, १६ १४, पाठ ३, ११,
 ४, -गात् माधौ ५, २, १२, २५,
 -गे वाधौ ३, २, ६, ४५
 यपो(वा उ)परि वाधौ ३, २, ४, ५
 यचित्वा ✓वपु द.
 यपुप् मत्- वपुस्- ६
 यपुस्(यमा)^०- वाउ २ ११७, -उ
 वीधौ ६, ७, ६, ७, ४, ३, ८, ८,
 ६, काधौ, अय ४८ ७५^०, ७१^०,
 शय ११६. ५४^०, सुदे ४,
 ६६, निष १, १२^०, ३, ७^०,
 -नुपा अय ५२, २, १, ५८^०,
 ३, ९, -नुपे शाधौ १८, २२.

a) यपानाम् इति प्रपास प्रम् । b) यत । c) यन उप = परिमाण विशेष । वैप ३ ७: ६,
 १०-१७ यत यलानि, यपा इति सुदित नेष्टम् । d) पाठ १ नाल् इति शोध (यु ७ [यु वाधौ ८, ८ २७]) ।
 e) वृत् ल्यां । f) यैम् इति गोष्ठ ३, १०, २७ भाष्यम् । g) सवा मे ४ १, १ यपायत्त इति पाठे ।
 h) उप भावाविपरखणे प्र । i) वैप १ द । j) सवा 'णीनाम्, ननुप्र' <> 'ययनुप्र' इति पाठे ।
 k) यपा' इति पाठ ! वनि शोध. । l) पाठे वृ २१४२ k द । m) वासव पाठे । n) = उदह ।
 o) = रूप । p) = मरु मेद- । सवा अणु २१२. ११ यपुम् इति ।

१४, आपथी १३, १०, १०^०,
 वीथी ८, १० १०^०, वैथी १६,
 १२ १३^०, द्विथी ९, ३, ३३^०,
 चौथ १, ९, ६^०, ऋषा २, ४५
 वपुस्-मन्- मन्त अप ५२, ६, ३,
 ७०^०, ३, १

घपोद्ग्रहण- प्रष्ट वषा- द.
 घसज्य-प्रसु, वषा, वषा, तमि- ✓वपुद्
 चमोधत्, घा^०- -या सात्र १, २८२.
 घन्स्यत्- ✓वपुद्
 ✓घञ् पाषा भ्वा पर गती.

✓घञ् पाषा भ्वा पर उद्दिष्टो,
 पृषवमीत् आपथी ५, १७, ४,
 द्विथी ३ ४, ४८

चम- पा ३, १, १४^०.
 चमति^०- -ति वीथी २, ५, १६^०.
 चमन- नात् या ३, २०.
 चमन-धिरक- -कथो विध २२,
 ६७

चमिद्- पा ३, २, १५७
 चान्त- -न्त विध ३०, १९, -न्तम्
 विध ४३, ३९
 चान्त कृतदमयुर्कर्मन्^०- -र्म्
 गीष्ट ६, १, ६.
 चान्त शिरिक मुण्डित-तदित्-
 चामन- -नात् विध ६३, ३५

३ घास- घा ३, १, १४^०
 च-म द- रव- द
 चञ्ज(वषा)^०- -ञ्ज. ऋज २, १०, ११^०,
 या ३, २०^०

चैवली^०- -ञ्जो^० आपथी
 १५, २, १, वीथी ९, २ १८,
 माथी, -ञ्जोमि आपथी ५, १,
 ७, अप ४८, १२१, निघ ३,
 २९, या ३, २०, -ञ्ज वा ३,
 २०^०, -चैवली^० काथी २६
 १, ७, सुख ४, ७४.

चाञ्ज^०- -ञ्जम् दाथी ७, ४, १६,
 लाथी ३, ४, १५^०
 चैवन्-क^०- -क अप ४८, ६७,
 निघ ३, २^०, या ५, ३^०

✓चञ् पाषा भ्वा आत्म गती.
 चयन्ती- ✓वे द
 चयम् ऋतद्- द.
 रवयस्^०- -पाम ५ ४, २९^०, ३८, -य.

आपथी १५, १८, ९, वीथी ०.
 १७: २०, १८ १७, १५ २९
 १५, ३१^०, माथी, -यसा काथी
 २५, ११, ३३^०, सु १७, ४^०, द्विथ
 १, १६, ५, -यसाम् आथी ४,
 १३, १, वीथी १०, ५९ २४, २५,
 ३२ ३६, सु १७, ४, आष्ट,
 वीथ २, ८, ९^०, १०^०, -यसं
 आपथ १, १५, ७, द्विथ १, ४,
 ६६, -यासि आथी १०, ५, ९^०,
 आथी १५, १७, ११^०, १६, २, २६
 आपथी १५, १६, ५, १६, ३५,
 ११^०, वीथी, द्विथी २, ४, २२^०,
 -योष्यः आपथी १२, ३, १४,
 वीथी ९, १६ २५, चौथ ३, १०,

२५, गीष्ट २, १४, २२
 १ वापस- पा ५, ४, ३८^०, -सम्
 चैवाथी^० २, ८, ३, ३, ८, १, ३१^०,
 ५, वीथ २, २, ९, अप ७, १९^०.

चयत् क- पा ५, ४, २९
 चयो-निघन्त^०- -ने कौत् २६, ३२
 चयोनिघन्त- -न्तम् वीत्
 २९, २७.

रवयस्^०- -चैव. आथी ४, ११, ६,
 १३, ७^०, ७, ११, ७, ८, ९, ७^०,
 आथी १०, ११, १^० x, काथी,
 निम् ६, ७ ६९, अप ४८, १०३,
 वीथ १, १, १६, द्विथ ७, १६४,
 ३२, १६, वीत् ८, ४^०, ५^०, ६,
 या ६, ४^०, -य ङ-य अप १२,
 १^०, -यस ङ-यस^० आथी १५,
 ३, १७, आपथी १८, ३, ८, वीथी
 ११, १ १०, वैथी १७, ११:
 १०, द्विथी १३, ३, ३१^०, -यसा
 आथी १, ११, १३^०, वीथी ८,
 ५ १८^०, निम् ६, ११ ३१,
 ३३, १२ २, सु १७, ४, -यसाम्
 आपथी ५, २०, १५, -यसि
 काथी ४, १, १८, आपथी १,
 १०, १, काथी ३ ०: १, २,
 द्विथी २, ७, ४६, लाथी, -यसे
 णष्ट १, १३, ४^०, -यासि काथी
 ७, ८, १३^०, आपथी १८, ३,
 ९^०, वीथी ११, १: ११, -योमि.
 आपथ २, ११, २१^०

a) पासे वैप १ वृचसे मा ८, ५ टि द. । b) व्याप. । c) = वमन- । d) सम्प्रहारे द्रव ।
 e) वैप १ द । f) सपा वथी (मै ४, १, १ च) <> चयव (मा ३७, ४ च) <> वा ३७, १, ५ वृथिव इति च
 पासे । g) = चाप-विज्ञेय- । h) चा इति पाठ. १ यनि शोष (तु दाथी) । i) = हस्त- । j) = पठित्- ।
 k) तु पापम । l) पासे. वैप १, १९०० k द । m) = चाङ्- । n) सपा. पाठ ३१, ११ दय. । < [वि-] इति
 पासे । o) सास्यदेवकीय. षण् प्र । p) उप मयाधिकरणयो प्र । q) = ऋत, १ वसन्, वापुस्- प्रम् ।
 r) पासे वैप १ चौ ६, ३६, २ पृष् टि. द । s) = [प्राण-वपरक] वपु- (तु आपथी १८, ३, १) । t) 'सम् दति पाठ
 यनि शोष (तु आथी प्रम्) । u) पासे वैप २, २४३६ ग द । v) = [उपचारत्] इन्- । तदति रति । w)
 = [प्रधानवपुद्गतात्] वपु इति विधापर, = विविध वस्तुपाठ- इति ऋण. प्रम्. । x) पासे वैप १ क १०, ४५, ८ टि द ।

वय-वृत्ति- -जो अण ९,२,७.
 वय-व्रमाण- -णम् वाच १७,६९.
 वयस-शरीर-कर्म-वला(ल-आ)दि-
 -दि गुण ६६
 वय-वय- -वम् नित् १,७ : ८,
 उति ४ २५
 वय-शरीर-गुणा(श-ग)न्वित- -ता
 अण २१,१,५
 वयस-कृत्- -कृतम् वाचो २,
 ११,३, वौश्री ३,८ : १०.
 वयस्व- पा ४,४,९१, -स्व गौध
 ६,१४, -स्वम् आपघ १, १४,
 २६, हिष १,४,५५
 वयस्या- -स्याः काथी १७,८,२२,
 आण.गौ १७,१,८,९, वौश्री १०,
 ३८ १६, माथी ६, २, १, ६,
 वैश्री, -स्यासु पा ४,४,१२७
 वयस-वय- -वते आपथी १२,
 १५, ११, वौश्री ७, ७ : १२,
 २६, ३१ ५, हिश्री ८, ४, २८,
 -वन्त वाथी २,११, ३, वौश्री
 ३,८-१०
 वयस वि(व >)वी- -नी हिश्री
 १२,१,६
 वयो-धम्, धा- पाठ ४, २२९,
 -धस. हिश्री ११, ७, ५११,
 -धसम् वौश्री ७,४,४१, -धसे
 काथी १२, ५, २२, आश्री
 १९, १०, ८, माथी ५ २,११,
 ४३, वाथी ३, २, ८, ५, हिश्री
 २३, १, ५८, वैश्री ३०,
 २५, -वा आथी ३,७, ७,
 ८, १, ४, १२, २, वाथी

वापोघस- -स. वाथी ४, ५,
 १४, शुभ ३, १०८, -सस्य वाथी
 ३, २, ८, १४, -सान वाथी १९,
 ६, ११, -से शुभ ३, १०६.
 वापोघमा(स-आ)थी- -प्रिय
 काथी १९,७,२०
 वयवो धा- -धा आपथी २०,
 १६, ११, -धाम् आथी ३, ८, १
 वयवो(ध >)वा- -धाये वीम्
 २४, १०, आ १८, १, ११.
 वयो(यस्-प्र)धिक- -काय आप्रिण
 २, ७, १० १४
 वयवो नाथ- -वै वैश्री १९, २
 ६, भाशि ४८
 वयो(यस् अ)नुरूप- -यम् विध ७१,
 ५
 वयो-वर्ग विद्या-वय-संपन्न-
 -आय शंघ १३३
 वयवोविनि- -नि हिश्री ११, ८, ११
 वयो-विशेष- -ये आपघ १, १४,
 १४, हिष १, ४, ४६
 वयो-वृद्ध- -द्ध आपघ २, १७, १०,
 हिष २ ५, २९
 वयवो वृष्- -वृष् आपथी ७, १७,
 १, १६, ११, १२, माथी, वैश्री
 १८, १० ५, हिश्री ११, ४, १२
 वयस- (> वयस- वा) वाग ५,
 २, ६१, ३, ११७
 वयस- (> वयसि [व]नी- वा)
 वाग ५, २, १२५
 वयस्क- १वयस्- द्र
 वयसा- -या आपथी ५, २३, ९, १६,
 १५, ७, माथी ३, ८, १, वैश्री,

या १, ४, ६, ३, -याम् कौण
 १, ९, ७, शाण १, १५, ६
 वयस- > वयस नाथ- -वाथी
 ६, २, १, ३, वाथी २, २, १, ४
 वयस- पाठमो २, १, ११९, -वयम्
 अण ४८, ८४, निघ २, ८, १, ४,
 १; -नानाम् कौम् १३५, ६,
 -वयानि आपथी ४, ६, २, वौश्री
 ६, ३० २०४४, वा ५, ९,
 ८, २०, ९, १५, -वयम्
 आपथी १७, १४, ४, वौश्री १०,
 ५९ १४, वैश्री १९, ६ ७७,
 हिश्री १२, ४, १३, कौण, -वय
 अण २, ४३, शुभ ४, ७८
 वयस-वय- -वत् वाथी १४, २४,
 ५, अण ९, २१, वा ५, १५
 वयस(न >)ना वय- -वित वौश्री
 ६, २४ २२, ९, २ २, अण
 ९, १७, शुभ ३, १७, वैश्री ३ २
 वयसिभेद- -दा वौश्री १७ ४
 वयस- -व्यम् अण १४, ४२
 वयस- -व्यस्य नित् ७, ५ ११
 वयस पाथा सुरा उम ईसाणम्
 वय- वृ (आ-उादने) द्र
 वयस- वाग ४, १, ९९
 वयस्य- वा ४, १, ९९
 वयस्योप- -या वयस्य २ १
 २ ३ वय- √३ (वरण) द्र
 ४ वय- √३ (आच्छादने) द्र.
 वयस्क- पाठमो २, २, ७
 वयस्क- > वयस कोदार-कोदव-
 -वामि वैश्री ११, ११ ९
 वयस्क- वयसि-प्रम् √३ (वयसि) द्र

a) वैष १ द । b) पाठे. वैष १ वयसकुवम् मा ३, १८ टि द. । c) = सवयसक । d) = (वय-
 शब्दवती) इष्टका । e) विष । सास्यदेवतीय अण प्र । f) वय भाप. । g) वस । h) पाठे
 वैष १ वयोनाथे टि द । i) पाठे वैष १, १७११ । j) अर्थ वृत्त १ । k) वृ १२४५ ह द ।
 l) = आनुषंगीविशेषविशेष- । m) = स्या तै ४, ६, २, ६ । काण्ड ४, १४, २ इ वैषवे इति पाठे । n) = अग्नि-
 विशेष- । o) = शाखा विशेष- वा तदन्वये- वा । p) = धाम्य-विशेष- ।

घट्ट- पाठभो २,२,१७
 ईवरण-√वरण पा पागड,१,२७^३
 रवरण^१,णा- वा,पाग ४,२,८२
 ईवरण-√रु(वरणे) द
 डवरण-√रु(आच्छादने) द
 पवरण-√रु(प्रतिषेधे) द
 वरणीय-√रु(वरणे) द
 वरण्ड- पाठ १,१२९
 वरतन्तु^६-> वारतन्तवीच^६- पा ४,
 ३,१०२, -या च्यू २ ४
 वर-लम-,-ए-√रु(वरणे) द
 वरत्र,त्रा-√रु(आच्छादने) द
 वरद.^६ वेताश्री ३४,९^१
 वरद- प्रम्, वरयितम्- प्रम्
 √रु(वरणे) द
 वरशिख^१-> वारशिख- -खाद्
 वृ ५, १३९, -मै वृ ५,
 १२४, १२५
 वरस्-√रु(आच्छादने) द
 वरस^६- सम् माश्री २,२,२,२९
 वरसपद्-√रु(वरणे) द
 वरसाम- पाठ २,८६
 वराटक- वराट- टि द
 वराण^६- (> ण स- पा) वा, पाग
 ४,२,८०
 वराल- पाठभो २,२,१००
 वरासि- वरासि- द
 ईवराह(वरा)^१- पाग २, १,५६, ४,
 १,४१^१, २, ८०^६, -०ह विष
 १,५१^१ -ह बीश्री २५ १०

१२, २७, ५२ १०, द्वित्री १५,
 २,२५, अण ४८,१०१^१, संव,
 फंनिष १, १०^१, या ५ ४४^१,
 -हम् विष ५०, ३६, या ५,
 ४^१, -हस्य बीश्री २४, १४
 २, -हा अण १, ८, ६, ६७,
 ७, १, अण २२२, वा ५, ४^१,
 -हे गौष २२, २६, -हे अण
 ६१,१,७
 वराही- पा ४, १, ४१^१,
 -है वायुश्री ४, १०६ ५
 वाराह^१- -हम् विष १,२
 वाराही^१- -ही अणभो १८,
 १७,१२,२२,१, बीश्री १२,१०
 ८, १२ १, १६ २३, वाश्री
 ३२ ३,११, द्वित्री १३६,१५,
 -होम्याम् काश्री २ १, २४,
 -ह्री वायु ३,८
 वाराहक- पा ४, २ ८०
 वराह खड्ग महिष- पा अण
 ६८ १,३२
 वराह-वृ-,-, -वृ-व- वा ५,४,१४५
 वराह पर्वत^१- ते विष ८५,७
 वराह प्रेत सादूल सिंह मार्जार-
 वारण- -ही अण ५८^१,३,४
 वराह-मार्जार म(मि)दिप- -याम^१
 अणाय ३,१०
 वराह विपाण- -णम् अणिसृ २,३,
 ५ २.
 वराह विहृ^१- -तम् काश्री २६,१,

३,८, वापश्री ५ १,७, ९, १०,
 १५, २, १, बीश्री २, ६ १८,
 १२ २x, माश्री ५, ५, ९^१,
 माश्री १,५,२,१२x
 वराह-विहित- -तम् माश्री ११,
 २,१^१, -तात् कौसु १५,२,
 वराह(ह य)नुय(त>)ता- -ता.
 अण ५८^१,४,११
 वराहो(ह त)वत- -तम् वैश्री १,
 ७ ४, ९ ६ ८
 वराहो(ह त)पावद्- -वहो काश्री
 १५, ६, २४
 वराह^१-> वराह- -हम् कुम् ३,
 ११ १०^१, च्यू २ ७^१
 वराहि- -हि निस् ६, २ ९,
 -हय बीश्री १७ ९
 वराहव^१ बीश्री १९,१० २७^१
 वराहार-√रु(आच्छादने) द
 वराहृ^१- -हय बीश्री १९ १० २७,
 वा ५ ४, -हृद् वा ५ ४
 वरित-√रु(वरण) द
 वरिमन्- प्रम् √रु(आच्छादने) द
 वरिप्यत्-√रु(वरणे) द
 वरिपी अण ४८,६८^१
 वरिप्य-√रु(वरणे) द
 वरिष्ठ-वरी-√रु(आच्छादने) द
 वरीय-√रु(वरणे) द
 वरीयस्-√रु(आच्छादने) द
 वरीयजयन्ती-,"रीवृजत्-√रु द
 वर- वर- द

- a) धा गतौ रुषि (तु पासि) । b) पाका पाठ । c) = प्रापि विशेष । d) वृ २१५६ ०८ ।
 e) पाठ ? । तथा आपश्री २१,२०,३ वदत इति पाठे । f) वैप १६ । g) = दर्भान- । h) = वीरण
 लुण इति पाठम् । i) प्रायेण = स्वर- । विशेष टि द । j) तु पाठम् । k) अर्थ ? । l) = विष्णु- ।
 m) = पर्वत- । n) = मेघ । o) = अत्रिण् १वर्ष । p) = श्लेषि विशेष- । q) तस्येदमाद्ये प्र ।
 r) = तीर्थ विशेष । s) 'पाणाम्(तु सखरुं टि) > नैप गति (तु वैप १, १६-५८) । t) तथा
 'विहृत् <> 'विहितम् इति पाठे । u) = वराह-वर्षम् । v) व्युप (तु पाठ ४४, १, ७६) ।
 w) = पाठ विशेष- । x) = मैत्रायणीय-भेद । y) पाठ ? वृहेह व इति दोष (तु ऋ ७, ५६, ११) ।
 z) पाठे ? वृहेहोऽपि (परि) टि द ।

वस्तु^{०००}- (> वास्तक-पा) पाग ४,

३,११८

वस्तु^०- पाग ४,३,११८.

वास्त- पावा ५,४,३६

वास्तक- पा ४, ३, ११८.

वास्तकि- पावा ४,१,१७

रेवरुण^०- (> १वारण- पा) पाग

४,२,७५

रेवरुण(वसा)^०- पाठ ३,५३, -पं०ग

आश्री ३, ६, २४^०, ७, १५××,

शाश्री, अणमं१, १, ३××, आमिष्ट

१, ५, ४ ६४, ह्रिपि २३. १५०^०,

-ण आश्री २, ११, ०-४, ११,

१२^०, १७, १४, ३, ७, १५^०, १२,

२८, ४, १०, ४, ११, ५, ४, २, १०,

१०, ७, ३, शाश्री ३, ६, २××,

१४, ७, १^०, ३५, १, १५, १२, १,

१८, १^०, २२, १, १६ २, ७,

आपश्री १०, २८, १××, काठश्री

३३, बोधो ६, १५ २५^०,

१०, ५५ १७, १८, १३,

३१ २, १४, २४ ११,

१७, १४ १०, वापुश्री ४,

११ १, ६, ७, १९^० १०,

११^०, हिश्री ५, ५, २८, ९, ८,

३४, आपम १, ४, ७, २, १५,

१, १७, १७, आमिष्ट १, ५,

२ ५१, २६ २ ८, अणमं ३,

३, अण ३६, १, ८^०, ४२, ३, ७,

४८, ७५^०, १३७, ६४, १,

१०, ६७, २, ४, अण १०३,

बोध २, ४, २०^०, वृदे १, १०२,

२, ११××, ५, १४७^०, १४८^०, ८,

७०^०, अण ४, १३८^०, १४२^०,

साअ १, १८५, ३७८××, वा

६, १३, ७, ८, १०, १२, २१,

वेजयो ३३^०, -णम् पंशाश्री २,

११, ४××, शाश्री ६, ३, ३१^०××,

१४, ७, १, १५, १३, ४, १८,

१, २०, १, २२, १, आपश्री,

काठश्री ३६, बोधो ५, ८ २७,

१०, ५५: १६, माश्री १, ७,

४, ४०, २, ५, ४, २८, वाश्री ३,

२, २, ३४^०, बोधो १६, २५ ७,

हिश्री ९ ५, ३१, आमिष्ट १, ५,

४ ११, २, ४, ११ १०, ६, २

५, ८^० १७, काण १९ ७, ५७,

३, माण १, ११, १३, २, ६, ४,

१०, ८, वेष्ट १, ४ ७^०, जैष्ट

१, १३ ६, कौश ४३, ३, १२७,

३, अण १३, ३, १६, ६५, ३, ४^०,

अण १०३, ११६ २२, ५९^०,

बोध १, ४, ८, वैष २, १३, २,

वृदे २, ३३, अम १, १, ३, २६,

४, ४, १५ ५, ३, २४, ७, ११२,

-णयो^० आश्री ५, १०, २८,

७, ५, ९, -णस्य पंशाश्री १,

११, ३, ३, ६, २४××, शाश्री २,

५ ११^०××, १४, ७, १, आपश्री

१०, २८, १××, बोधो ४

११ ४, ५, ९ २०, १४,

३८ ११, माश्री २, ५, ४, ३४,

हिश्री ७, ३, १^०, १२, दाश्री ७,

१, २, १^०, शाश्री ३, १, २, १^०,

वैताश्री १५, ३, अण ५२,

१६, १, अश्री १४, २, वृद

३, १३४, ५, १८××, वाअ

१५ १, वा २, १३^०××, वा

७, २, २३, -णम् आपश्री ७,

०१, ६^०, बोधो, -णस्य पंशाश्री

३, ११, २, ६, १३, ८, शाश्री,

बोधो १४, ५६: १४, ५९ ८

६१: ६, १८, ४७ १७, २७,

३ ११, माश्री ८, ५, १०, माश्री

५, २, ४, ३२, ११, ३०^०, आमिष्ट

१, २, २ ९, ६, ३ ४७, २, ४,

३: १०, काण ५४, १, ७, १३,

बोध ३, ९, ३, माण ३ ९. १,

माण १, ११, २, वाण १७, ६,

वैष्ट ३, ७ १२, २० १०^०,

विष ४७, ३, -णे आश्री ७, १०,

५^०, शाश्री, अण ७३, १७, ४,

-णम वाण ३, ११, १^०, आमिष्ट

वृद २, ११७, ११८, २, २,

४, ३, १०९, ४, १२८, वा ७,

१०, -णो वाणि २, २३, वाणि

२, ३, ५

वरुणानो- वा ४, १, ४९,

-नी काण २० २, अण ७३ १७,

७, वृदे ३, ९२, वा १२, ४६^० १^०,

-नोम् वा ९, ३४^०

रेवरुण(वसा)^०- ण शाश्री

१४, ७, ३, काश्री ५, ११, २७ १२,

a) = वाति विशेष (द्व शक) । b) द्व पागम । c) अर्थं व्यु च १ । रेवरुण- (परि) इति [पक्षे] भाष्ये वाति । d) वैप १६. । e) ९२ इति पाठ १ वनि शोष (द्व मा २१, १) । f) = विवपाळ- विशेष । g) = उदक । h) = जम्बुमरण- वा जलोदरन्याधि वेति भष्यम् । i) = द्वादशादित्या- ऽयतम- । j) = अदिति पुत्र- । k) = पक्वकच्छन्तो देवता- । l) = त्वरादृष्ट-दो-देवता- । m) = सतभिक्षमचन देवता । n) पाठ १ धरुणम् इति शोष (द्व मा ८, ५१) । o) वैप १, २४९२ ई ३ । p) पाठ १ ण, त्वा इति द्विपद शोष (द्व मै १, २, ६ आपश्री १०, २८, १) । q) पाठ १ ण, च इति द्विपद शोष (द्व मा ८ ३७) ।

३, १०, ३, २०xx, आपथी, कौम्
 २२, ८६, अप ५२, ११, ५, ५७,
 ४, ७, शप ४४८६, आज्यो
 १, १०^b, -णम् आथी ६, १३, ६,
 ७, ५, ९, १२, ६, ९, शांथी, वीथी
 ८, १६ २०, २०-३०, शप
 १००^d, विप ९, २, शम २१,
 २४, ३, २८xx, -णस्य शांथी
 ६, १०, ११, वीथी १०, ५५.
 १३, १६, ११-१४, १७, १४ :
 ५, ५६ २३xx, हिथी, -णा.
 आपथी २०, १४, ९, हिथी १७,
 ३, १७, अप १८, १, १३xx,
 ५५, १, ३०, शम २८, ६९,
 -णात् वीथी २६, ३ : १२,
 शांथी ५, ४, १७, २१, शांथी
 २, ८, १७, २१, वैथ ३, १६ : १३,
 -णात् वीथी १३, ३३ १, २३,
 ४१, ४, ६, माथी, अप ५५, १,
 ५०, -णानाम् माथी ५, २, १,
 २७, अप ५५, १, ८०, -णानि
 वीथी १५, ३६ २५, २५, १
 २०^f, सुथ १, २९१, आज्यो
 ३, १^f, -णाव वीथी ८, १० ५
 -ण विप ७८, ३०^d, सुदे ६,
 ७८^f, शम ५, २, १९, ४४, -णैत
 आपथी १३, २०, ७, वीथी
 १८, १८ : १, माथी, कौम्
 ५, ८, ४, आज्यो ३, ३^b,
 -णैभ्याः शांथ २, १४, ७^f, -णैषु
 वीथी २६ ६-१४, अप ५९ १,

१६, -णौ वैथ ५, ४-२७^f.
 धारणी^b- वी आथी ३,
 १२, ५, शांथी ३, १४, ४, ८, ११,
 १, काथी, असां १६, १^f,
 सुदे ४, ८^f, -णौ आपथी १०,
 १५, ६^k, वीथी २८, ९ : ३^k,
 आथ २, ३, ३^f¹⁰⁰, कौम् ४, ४,
 १^f¹⁰⁰, शांथ ४, १८, ३^f¹⁰⁰,
 पाथ २, १४, ४^f¹⁰⁰, माथ २,
 ७, १^f¹⁰⁰, -णोभिः^k हिथी १२,
 ६, २६, आथिथ ३, ६, १ १२,
 १०, २ १२ वाथ ६०, ५, वीथ
 ३, ३, ५, ९, ३, वीथि, आपथ १,
 २६, ७, वीथ २ ४, २, १०, ३२xx,
 गोथ २५ १०, -णोभ्य वीथ
 ३, १, ४, २, ५, माथ ३, ४ ५,
 -णोभ्याम् आपथी १८, १२, ९,
 हिथी १३, ५, ५ ६, १६, वीथ
 २ ४, ९, -णोम् आथी ३, ११,
 १६, आपथी ९, ६, १, ६, वीथी
 ५, ५ १६, ६ : १३, ८. १६,
 २४, २२ ९, माथी, आथिथ २,
 ६, ८ ३०^d, अप ६५ ३, ६^f, ७०,
 ६, ५^f, असां १७, ४^f, वीथ २,
 १ २०^d, ३, ८, १^d, -णीषु वीथी
 २४ ३ १०, -ण्य वीथी २८
 ११ १०^d, शम २ ४, १, सुदे
 ८, ४३, -ण्या आथी ३, ११,
 १६, आपथी ९ ६ १, वीथी ६
 १७ १९, माथी ८ १, ४, ७,
 माथी ९ ८, ३xx, माथी, -ण्या

शांथी ३, १४, ११^d, आपथी ८,
 ५, २८, ६, ३१, काथी ३६^d,
 माथी ८, १०, ६^d, माथी, वैथी
 ८, १४ १^d, हिथी ५, २, ५५,
 ६३^d, -ण्याम् आथी ९ ४, ६,
 आपथी ८, ६, १२, १७, माथी ८,
 ७, ८, १४, माथी, वम ३ ८, ५^d,
 अप २५, १, ७xx, असां १८,
 ६xx, -ण्यै आपथी ८ ७, १४^d,
 वीथी ५, ८ : २३^f, ३०, ३६, ९ :
 १६, १७^d, ५६ : २१, ६२ ११,
 माथी, माथी १, ७, ४, ७^d, -ण्यौ
 वीथी १८, १८ २, आथिथ १,
 ६, ३. २, सुथ १, २८६, २,
 ४५०

वारुणी-निष्काय-
 -यम् वीथी १, ७, २, २६^d, -णैषु
 काथी ५ ५, २८, वीथी १, ७, २,
 ४२

वारुणी मानवी-
 -वीभि गोथ २३, २९
 वारुणी-वत् काथी ५,
 ५ १९

वारुणी विधि-
 पूर्वक-क थन ६७, २३
 वारुण्य (वी-अ)वत्-
 -णैभ्य वीथी ८, १३ ८

वारुण्या (णी आ)
 दि- दि आथिथ १, ६, ३ ६१,
 ७ ३ ३८, २, ५ ११ : १५, ७,
 ५ ८

a) = कृच्छ्रमते- । b) = सुहृत् विधेय- । c) विप > नाप (पुरोडास) । d) = शनान भेद ।
 e) = [वरुण-पुर-] आथ केतु- । f) विप (जलसे वप्रक १ गोधुमादि) । g) = [वरुणदेवत्य-] शतमिपवृत्तक्ष- ।
 h) विप (इति, पयस्या प्रथ) । i) = शान्ति विधेय- । j) वारुणे इति शसक्तुंरुवादे टि (सु सुदे ६, ७८) शोष ।
 k) विप > नाप (वरुणदेवत्या-] शम्-) । l) पामे पृ १९३१ k टि द । m) = सर्व विधेय । n) = परिचम-
 दिशु- । o) = सुरा विधेय । p) = आहुति-विधेय । q) सपा ंया निष्कायेण <> ंया निष्कासेन <>
 ंयै निष्कासेन <> ंयै निष्कासेन <> ंनिष्कासेन <> ंणीनिष्कायेण इति पामे ।
 r) वस ।

वारुणे(शी-ए)क-
 वपाल- लौ माथी १,०,४,९.
 वारुण-निष्कास- सम् माथी
 ८,५,२३.
 वारुण मारुत- लौ शीथी
 १४,१०,९.
 वारुण-वत् वैथी ८,१४:४.
 वारुण-वर्षम् आथी २, १५,
 ६.
 वारुण-संनिभ- भा: अप
 ५८,१,१०.
 वारुण-स्थान- ने वैथी २०,
 १३: ५.
 वारुणा(ण-आ)ग्नेय-
 वावय- न्या: अप ६४,१,५.
 वारुणा(ण-आ) शिव-सौम्य-
 -म्यानाम् अप ४०,४,५.
 वारुणा(ण-आ)दि-केतु-
 -तानाम् अप ५५,६,४.
 वारुणा(ण-अ)न्त- न्तम्
 वैथ १,१५: ६.
 वारुण- न्या: शीथीप्र ४८: ६;
 द्विपि १: १३१; अत्र २, ९,
 ६५; १०; ११; १०५, वृदे ६,
 २४; ३३; साम १, १९२;
 ४६९; ५०३; ४८०; २, १८३;
 २५४; -ने: वाअ ४: ८.
 वारुण्य- न्येभ्य: कौथ ३,
 १०, ६१; अप २१, १, ७.
 वारुण-गृहीत- नस्य कौथ २६,
 ३९.
 वारुण-येष्ट- हेभ्य: आपथी ४, २,
 २; भाथी ४, २, ६; द्विथी ६, १,
 १९.
 वारुण-दत्त-> वरुणिक- वरुणिय-

वरुणिक- पा ५,३,८४.
 वरुण-द्वैवत्- नव: वृदे ६, १३.
 वरुण-द्वैवाय- न्या: वैथ ३, १७:
 २.
 वरुण-न्यत्र- न्तम् शीथी १५,
 १३, ३.
 वरुण-पात- न्तम् शीथी १७,
 ४०: १७; माए १, २३, २७;
 -द्वात् शीथ ४, १०, १९१; -सेन
 आपथी ८, ६, २२; शीथी ५, ७:
 ८१; १३, ३१: २; भाथी ८,
 ८, ५; -शेभ्य: शीथी १४, ७,
 ११; -लै: शीथी १४, ७, १.
 वरुण-पुरय- येभ्य: आप १, २, ५;
 आणिय १, ७, २: ६; काए ५४.
 १३; माए ३, १४: ३; माए २,
 १२, १४; वैथ ३, ७: १२; विथ
 ६७, १७.
 वरुण-प्रधास- सम् शीथी १४, ७,
 १; -सा: शीथी ३, १४, १;
 काथी ५, २, १; ८; आपथी;
 -साम् शीथी १४, ८: ५; १५,
 ९: १९; -सानाम् आपथी २२,
 ८, ९; शीथी २८, १२: १७;
 १५; द्विथी १७, २, ३१; दाथी
 १३, १, १; लाथी ५, १, १;
 -साम्याम् शीथी १७, ५६: १;
 -सेन शीथी १७, ५९: ३;
 -सेषु शीथी १४, ९, ५; १०, ९;
 काथी ५, १, १०४४; काथीसं,
 -सै: काथी २, १७, १; १८, १७,
 १२, ४, ८; शीथी ३, १५, २४;
 १४, ७, १; आपथी.
 वारुणप्रधासिक- क. माथी
 २, ५, ४, ७७; -कम् लाथी ८, ८,

४५; -कानि शीथी ३, १५,
 १७; आपथी २२, ८, ११; -केन
 आथी ८, १२, २; द्विथी ५, ३,
 ४१.
 वारुणप्रधासिकी-
 -कीम् माथी १, ८, १, १९.
 वारुणप्रधासिको(क-व)
 सरविहार-वत् वैथी ९, १२:
 ११.
 वरुणप्रधास-वत् काथी ५, ७, ७;
 ६, २, १; १०, ९; १०, ९, ५; १५,
 १०, ७, १९, २, १; ५; वैथी १५,
 ४: ११.
 वरुणप्रधास-साकमेध-मुनासी-
 शिव- न्यानाम् आपथी २४, ३,
 ३७.
 वरुणप्रधास-स्थान- ने आथी
 ९, २, ८; काथीसं २८: १७.
 वरुणप्रधास-द्विष- विधि:
 शीथी ५, ५: १; १२, ३: ४;
 १७, २०: ७; -वि:पु शीथी २१,
 ६: १७; -वीपि आथी ९,
 २, ९; शीथी ५, ९: ३३; १५,
 १०: ११; १७, ५६: १; ५९:
 १२; ६१: १३.
 वरुणप्रधासो(स-उ)नरविहार-
 -वत् वैथी ९, २: १३.
 वरुण प्रस्(त>)ता- ता: शीथ
 ३, २१.
 वरुण-आर्थन- न्तम् अत्र ४, १६.
 वरुण-अय- अयम् अप १९, १, ८.
 वरुण-मिथ देव- न्या: वृदे ४, ९.
 वरुण-सिन्ना(त्र-अ)र्धमन्- न्याम्
 अत्र २, १, ४१; साम १, २५५.
 वरुण-वय- न्तस्य काए ७१, १२.

a) पाठे. वृ २१४९ वृ द. । b) वत. पूष. = परिवचन-दिग्- । c) = शीथ-विशेष- । d) विप. ।
 प्रयत्न-श्रीयः एवः प्र. । e) = जलोदरितः (शु. शरितः) । f) वस. । g) = वान-भेद- । वृ १ द. ।
 h) मशार्थे वृ प्र. (पा ४, ३, ६८) । i) अग्रप्रस्ता: > पै ६, ३, १२ अग्रस्य प्रस्ता: इति पाठे. ।

वरुण-वाम- -गः अथ ६७, २, ३.
 वृवरुण-राजन्- -जम्भ्यः आपथी
 १४, ३२, ५; वीथी ७, ४: १४;
 २२, ५: १८; द्विथी १५, ८, ३१;
 -जाता: शीथी ४, २१, १०; वीथी
 १०, ५१: ४; शीथी ६, ३, ४,
 १; वीथी २, ३, ३, २; काण २४,
 १२.
 वरुणराज्ञी- -ज्ञी: -ज्ञीभ्यः कौसु
 १३५, ११.
 वरुण-संमि(त >)वा- -ता: माण
 २, १४, २६.
 वरुण सामन्- -म जैथीप १०;
 लाथी ७, १, १; कुण २, ३: १८;
 ३, १०: १६; १८; निम् ७, ५:
 ३२.
 वरुण-भूक्त- -भक्तम् आणिय २, ४,
 ६: २०.
 वरुण-स्तुति- -ति: अथ ६, ५१.
 वृवरुणा^० आथी ५, २०, ६^०; शीथी
 ३, २०, ४^०; वरुणा शीथी
 १२, १०, ४; ११, २२.
 वरुणा(ए-अ)न्त-> -न्त-व्रतान्त-
 -न्ती कृपा ४, १०.
 वरुणा(ए-अ)यमन्- -मणौ अंथ
 ११६: ४३; -मणयाम् वाण १७,
 ६.
 वरुणा(ए-अ)यम-मिथ- -व्रणाम्
 वृदे ३, १०८; ६, ५०; ८, ८६.
 वरुणे(ए-इ)न्त- -न्तयो: अथ १,
 ४, ६.
 वारुणेन्द्र- -न्त्रेण वीथी ३, २,

४, ५; ६.
 वरुणे(ए-इ)न्त- (इ-अ) विव-सोम-
 -मानाम् वृदे ८, ४५.
 वरुणे(ए-ई)रण- -णम् अथ ४,
 १६.
 वरुणे(ए-उ)क्ति- -क्ति: अथ ४,
 १६.
 वरुक्त- पाठमो २, २, २९.
 वरुक्त- पाठमो २, २, १०५.
 वरुक्त-, वरुक्ति, त्री- ✓वृ
 (आच्छादने) द.
 रिवरुक्त- -थारु निम् ६, १२: १२.
 रवरुक्त- -व्याप वीथ ३, ९, ५.
 रवरुक्त-, रविष्-, रथ्य- ✓वृ
 (आच्छादने) द.
 रवरेणीय- ✓वृ (वरणे) द.
 रवरेण्य- (> वारेण्यवनि- पा.) पाण
 ४, १, १५४.
 रवरेण्य- ✓वरेण्य प्रथ. ✓वृ(वारेण्य)
 द.
 रवर्क- रवर्क- द.
 रवर्ग- प्रथ. ✓वृ द.
 र्वर्च- पाथा. भ्वा. आत्म. दीभौ.
 र्वर्च- पाठ ४, १८९; पाण ३,
 १, १२; -र्च: शीथी ४, १२, २, ५,
 १९, ५, ६, ६, १६; शीथी २, ११, ३;
 ४, १२, १०; शीथी; वीथी १२, ८;
 २१७, २३२: ४४; आणिय १, ५, १:
 ४^०; २, १, ४: १८; निम् २, ७५^०;
 -र्चस: अथ १९, ५८^०; -र्चसा
 आथी ११, ६, ४; शीथी २,
 ११, ५^०; ४, ११, ६; ७, ५, १^०;

३^०; ६; शीथी; आथी ६, १६,
 १२^०; वीथी ३, ८: १२^० x x;
 शीथी ६, ३, ३^०; वीथी १८,
 १५: १५^० x x; द्विथी ६, ६,
 १५^० x x; -र्चसे काथी ५,
 २, १४; आथी १, २०, ११; ४,
 ११, २^०; ५, ११, ५; १३, ४; ६,
 १४, ७^० x x; वीथी ६, २:
 १^० x x; आण १, १०, ७^०; कौण
 १, २१, ८^०; शीथ १, २७, ७^०;
 २८, ९^०; पाण २, १, ९^०; ३,
 ७^०; आणिय २, २, ५: ९^०;
 अथ ४०, १०^०; वीथ १, ८,
 ८^०; २, ४, ९^० x x; भाण १,
 २८: १२^०; १७^० x x; द्विथ १,
 १०, ९^० x x; कौण १, ११:
 ११^० x x.
 र्वर्च-क- पाण २, ४, ३१;
 -के पा ६, १, १४८.
 र्वर्च-काम- -म: अथ ६, २९;
 ६९.
 र्वर्चय पा ३, १, १२.
 र्वर्च- -र्या: अथ ३२, १,
 १०; ३३, ६, १; -र्चस्य वीथी
 १७, ४१: १३; २५; ४२:
 ७; आण २, ८, १; शीथ;
 -र्यानि वीथ १२, १०; अथ
 ३२, १, १०; -र्यै: अथ ४६, २,
 १.
 र्वर्च-मण- -ण: अथ ३२,
 १, २८; -णस्य अथ २.
 र्वर्च-य- -यन् आणमं २, ८,

a) वृ. 1 b) = वाम-विशेष-1 c) वैप १, ८२६ i द. 1 d) = वृषा. मा ८, ५९ प्रथ.
 माण ४, ५, ७, ७ वैषा २, ८, ४, ५ पवा १, ५, १३। शी ७, २६, १ प्रथ वृषाण् इति पाठे। e) सास्यदेवतीषः प्र. 1
 f) व्यप. 1 g) वैप १ द. 1 h) पाठे वैप १, ११८५ i द. 1 i) पाठे वैप १, ६८७ i द. 1 j) = वृषा-1
 k) पाठे वैप १, ११९६ d द. 1 l) सवा. पाण २, ९, ११ श्रिये इति पाठे। m) सवा. शी ६, ६८, २
 पृथसे इति पाठे। n) पाठे वैप १ वृषेता शी १, ६८, २ टि. द. 1 o) सत्र. सि ४, ६, १ आणमं २, ८, १
 वृषेणम् इति पाठे। p) = वामवत्-1 वृषावा क्व प्र. 1 q) विर., माण. (मन्त्रपथ-विशेष-)

१५०; -वन्तः औध्री ८: ३१^b;
-वृन्तम् आध्री ६, ३, २२^c;
आपध्री १४, ३, ५; वौध्री १४,
११: ७; १५^x; हिध्री; -वृवान्
वौध्री १०, ३३: २०; माध्री १,
४, १, २७; वाध्री.

वर्चस्-विन्^a- -वृ^aविन्^a शांथी
१०, २, ६; काध्री १२, ३, ६;
-वृवी शांथी १०, २, ६¹¹; वौध्री
७, १३: २६; माध्री १०, ३,
२; आपध्री १, २१, ४; वौध्री ३,
१२, १८; भाध्री.

वर्चस्-वन्त- -वन्तः वौध्री ३,
६, ६; शांथी ३, ११, ११.

वृवर्च-सद्- -सद् आफरी १६,
२९, २; वैध्री १८, २०: २८¹²;
हिध्री ११, ८, ४.

√वर्चाय पा ३, १, १२.

वृवर्चो-इव, वा^a- -वृसौ माध्री
२, ३, ७, १¹³; -वा: आध्री ५,
१५, ५¹; शांथी २, ११, ३¹; ४,
१२, १०²; काध्री ३, ८, १६²;
आपध्री: वौध्री ३, ८: ६¹; १४,
८: १९²; पाध्री २, ४, ८²; अप्राय
६, ३¹; -वौ आपध्री १२, १८,
२०; वैध्री १५, २२: १९.

वृवर्चो-वस्, वा^a- -वा: आपध्री
१०, ६, १२: १४, २७, ६¹; वौध्री

३, २१: ७; ६, २: १३; २१,
८: ८; माध्री: वैध्री २१, १४: १¹;
१¹; -वाम् वौध्री ६, ७: ८¹³.

वर्चगर्त^a- (>वाचंगर्त-)

वर्चल- (वाचेलीय- वा.) पाग ४, २,
८०.

वर्चस्- प्रसृ. √वर्च् द.

वर्जन- प्रसृ. √वृज् द.

√वर्ण पाभा. सुरा. पर. प्रेरणे^a, उभ. वर्य-
क्रियाविस्तारगुण्यवचनेषु, वर्णयति
चव्यु ४: २५.

वर्णविष्यामि वैशि १३३; याशि
१, १; वर्णविष्यामः वाध १४, १.

वर्ण(वप्रा.)^a१-वाड ३, १०; पाग २, ४,
३१; ४, २, ८०²; ५, २, ९५;
१००; ४, ३²; -वर्णः वृवौध्री ६,
१५: ४; १४, १५: १६; वाधुध्री;
दाध्री ११, ३, ६; निस् ७, ६:
६; अप ४७, १, २×२; आपध २,
११, १०; ११; हिध २, ४, २५;
गौध १०, ७९; १४, २०; वा २.
३¹; १४: २०; ११, ३९; शुभा
८, ४५; वैश्रा १, १५; माशि १३,
१; याशि १, १८; वैशि २६२;
माशि १, ८, ३; वा ६, २, ३;
-वर्णम् वृशांथी ७, १०, १५; ८,
२५, १²; आपध्री २, ४, ८¹;
वौध्री; -वर्णयोः माध्री ४, ४, १;

२२, ७; ५, १४, ४; विध १, ११:
२०; अप; -वर्ण्य माध्री ५, २,
८; अप ५३, ४, ४; शंघ १५५;
वृधे २, ११६; वा ७, ११; शुभा:
-वर्णः आध्री १०, ५, १६; वौध्री
२, ११: १; अप ४७, १, १; १²;
३, ६; ६१, १, ३; ६३, १, ४;
वाध; -वर्ण्य शुभा १, ३५; वीच
१, १२; पाग ५, २, १२७; पावा
३, १, १०८; पापवा ५, १३:
-वर्ण्य आपध्री १६, ३३, ६;
२२, २०, १३; वौध्री १४,
४५: ६; १८, ८: ३; १६; वैध्री;
-वर्ण्यमां शांथी १, १, २; आपध्री
५, ३, १९; २४, १, १; वौध्री २६,
३३: ७¹; हिध्री १०, २, ३६;
वाध; -वर्ण्यमां अप ४७, १, ५
-वर्ण आपध १, १, ८; हिध १,
१, ८; शुभा २, ३५; याशि २,
४२; वा ५, ४, ३१; वीच ९, २,
२३; -वर्ण वौध्री ६, ३: १३¹;
माध्री २, २, ४, १९¹; अप ५३,
४, ४; ५८¹, ३, ९; चव्यु ४:
१३; १८; २०; पावा २, १, ६३;
-वर्ण्यः गौध ४, १८; -वर्ण्य
वौध्री १८, २: १४; वैध २, ८:
१३; अप ६१, १, ४; शंघ ३८२;
वौध १, २, १८; विध १८, १; वा

a) पागे. पृ २१५१० द. । b) पाठः ? यनि. एव साधु (वृ. सरथ. टि. तत् इति) । सरथ. श्रिया>
'असु-धा: (वि.) इति, ! सुधाम > असु-धाम (भा.) इति च शोधावपि द. । सरथ. मि > मपि इत्यपि
शोधावपि द. । 'इ अमे राममुवा अमि । अतः असुधां मपि धेहि । तद् (तथा हि) वयमायुष्मन्तो वर्चस्वन्तश्च [मन्तः]
उद्गोम' इति वा. । c) पागे. वैप १ वर्चस्वन्तम् तै ३, १, १¹ टि. द. । d) वैप १ द. । e) पागे. वैप १
वर्चस्वन् का ८, १२, १ टि. द. । f) पागे. वैप १ वर्चस्वान् मा ८, ३८ टि. द. । g) वर्चस्व इति पाठः ?
यनि. शोषः (ह. आपध्री.) । h) एतत्तरय पानि. वर्चोद्वस्ति मा ७, २७ टि. द., अतरय वर्चोद्वः मा ७, २७¹ टि. द. ।
i) पागे. वैप १ वर्चोद्वः मै ४, ७, २ टि. द. । j) पागे. वैप १ वर्चोद्वः मा ३, १७ टि. द. । k) पागे. वैप १
वर्चोद्वः मा २, २६ टि. द. । l) रापा. प्या: <> प्या: (मि ४, ६, ६ वा) इति पागे. । m) = स्या. मा ४, ११ ।
का ४, ५, २ तु वर्चोद्वाम् इति पागे. । n) पृ १८० हृ द. o) वर्चोमे इत्येके । p) = [अकारादि-] अतरय-
श्राहणादि, अतरयि- प्रसृ. । q) अर्थः ? । = वीरय- इति पागम. । r) वृ. पागम. ।

द, २, ३; -णैः अण द्रष्ट, २, ८;
आपथ २, ११, ८; विध ७, १२;
-णौ द्राघौ ११, ३, १६; लाघौ
७, ३, १७; निरू ९, ८ : ११;
माधि ७, ६.

वर्णं वा ५, १, १२३.
१वर्ण-क- पाग ७, ४, ४८^०; ५, २,
३६; -करय शीघ्र ७, १५, ८;
-कैः अण १९^१, २, १, ४.
वर्णिका- पा ५, ४, १०.
१वर्णक- पा ७, ४, ४८.

वर्णक-वे(पक>)विका-
(>वर्णकवेविका- वा.) पाग
७, ४, ४८^०.

वर्णक-म(य>)यो- -योः अष्टौ
५, ८.
वर्णकित- पा ५, २, ३६.

वर्ण-कल्प- -व्याः तुमु २, १ : १
वर्ण-कार- -तौ तैत्रा २२, ४.
वर्ण-काल- -तः शैशि ३२; -लात्
शैशि १४३.

वर्ण-काल-शुषसव- -सवम् पावा
१, ४, १०९.

वर्ण-काम- -मेण शीघ्र २७५; आञ्चो
१२, २.

वर्णकाम-विचक्षण- -जः तैत्रा
२४, ६.

वर्ण-गन्ध-रस-दु(ष्ट>)दा-
-दाभिः वाच ३, ३६.

वर्ण-गुण- -ज्याः ऋत्रा १४, १.
वर्ण-गोत्रा(श्र-आ)दिक- -कम् वृदे
३, १४५.

वर्ण-गोत्रा(श्र-श)विरोध- -तम् (ः)
वृदे ३, १४४.

वर्ण-ग्रहण- -जम् पावा १, १, ७१;

२, १, ६९^२; द, ४, ४९; ७, ३,
४४; ५०; -णो पावा ६, १, १३;
-णेन पावशा ७, ६; -णेषु पावा
३, ४, ७७.

वर्ण-ग्रहण-वर्जम् पावा १, १, ७२;
वर्ण-जात- -वम् शैशि १७.

वर्ण-ज्ञान- -नेम् पावशा ८, १.

वर्ण-ज्याधस्- -असाम् आपथ १, १३,
२; २, ११, ८; ह्रिग १, ४, १६.

वर्ण-ज्यैष्ठ्य- -अणेन कथ १, ८, ६.
वर्ण-तस(ः) धौश्री २८, ७ : १; अण
५८, १, ८; ऋत्रा १७, १३; १८;

भाशि ११४; माधि १, १, ५१.
वर्ण-त्व- -त्वम् आशि १, १.

वर्ण-देवता- -ताः शुभ्रा ८, ३६.
वर्ण-द्वेष- -विवेका(क-अ)र्ष- -र्षम्
शुभ्रा १, २६.

वर्ण-धर्म- -र्मः धीष ३, १०, १;
गौष १९, १; -र्मोः शैशि ३४४.

वर्णधर्म-रक्षण- -नेन सुवप ८८ :
१०.
वर्ण-नामम्- -न या २, २०; द,
१३, ९, २६.

वर्ण-परिमह- -हः अण ६३, ४, ६.
वर्ण-परिष्वंस- -साः ह्रिग २, १,
२१^१.

वर्ण-परिष्वंसा- -सायाम् आपथ
२, २, ७; ह्रिग २, १, २९.

वर्ण-पाठ- -डे पावा १, १, ६९.
वर्ण-गृह- -कः तैत्रा २३, ३.

वर्ण-प्रकृति- -तयः तैत्रा २, ७.
वर्ण-रूप-तय(ः) शैशि २१८.

वर्ण-रूप-विकार- -रात् अण ५९,
१, १.

वर्ण-लक्षण- -णात् वा ६, २, ११२.

वर्ण-लक्षण-स्वर-विभक्ति-वाक्य-
व्यत्यय- -यः अत्रा ३, ४, ६.

वर्ण-लोप- -यः या २, १; -पात्
अत्रा ३, ३, २१; पावा ६, १,
६५.

वर्ण-लोपा(य-आ)गम-ह्रस्व-दीर्घ-
प्लुता(स-आ)शमनेमा(या-परस्मै-
भाषा- -याः अत्रा ३, ४, ७.

वर्ण-रम्- पा ५, २, १५.

वर्ण-रती- -रति मात् २, १४,
३०^१.

वर्ण-विहार- -रः लाघौ ७, ११,
१९; -रात् पावा ६, १, १०६.

वर्ण-विचाल- -अस्य पावा १, १,
३९.

वर्ण-विद्व- -विद्वः पाशि २१०.
वर्ण-विधा- -धा^१ न्यू ७ : १२.

वर्ण-विधि- -धिः पावा १, १, ४५;
-धेः पावा १, ४, ३; ३, ४, ७७.

वर्ण-विशेष(प-उ)पत्ति- -त्तिः
तैत्रा २३, १.

वर्ण-वेदिद्व- -दिनः आशि ८, २६.
-दिभिः शैशि १०३.

वर्ण-वैद्व्य- -वयम् अण ६४, ९, ५.
वर्ण-वैशेष्य- -व्यम् तैत्रा २३, २.

वर्ण-व्यवहिका(न्त>)न्ता-
-न्तायाम् आपथ १, ९, १२;
ह्रिग १, ३, १२.

वर्ण-व्यत्यय- -ये पावशा ५, १०.
वर्ण-व्यत्यय(क-य)वापो(य-उ)
पञ्चन-विकार- -नेषु पावशा ५,
१५.

वर्ण-शिक्षा- -क्षाम् ऋत्रा १४, ६८.
वर्ण-श्रुति- -तिः आशि ८, १.

वर्ण-स- पा ७, ३, ८०.

a) = रजः, चन्द्रनादि-लोप-। b) तु. पागम.। ० टि. द.। अर्षः।। c) = (परीतार्थम्) सुवर्णादि-
मादा- इति (पक्षे) पागम.। d) तु. पागम.। e) वर्णक-पेविका- इत्यन्तरं(तु. पागम.)। f) अत्र. आपथ
२, २, ७ परिन्नाः इति पाथे.। g) उप. आप. <परि/ष्वंस। h) उप.<विद्व/क्षाने। i) तु। द.।

वर्ण-संयोग- गात् वीथी २४, १;
 १२; मीम् ११, ४, ११.
 वर्ण-संवर्ग- ञे वाध ३, २४.
 वर्ण-संहिता- न्या श्रमा ११, १४;
 तैप्रा २४, २.
 वर्ण-संकर- रात् वीध १, १, १५.
 वर्ण-संकर-कारि(व>)णी- णी
 आज्यो १३, ८.
 वर्ण-संकर-रक्षण(घ-अ)र्ध-
 न्यम् विध ३, ४६^६.
 वर्ण-संख्या- मये शुप्रा ५, १५.
 वर्ण-संघात- तः शैशि ३५४.
 वर्ण-संघात-ज- जम् वरे २,
 ११७.
 वर्ण-संचय- न्यः श्रप ४७, १, ३.
 वर्ण-संज्ञा- न्ज्ञा पावा १, १, ४५.
 वर्ण-समाकुल- ले श्रप ७२, ५, ३.
 वर्ण-समाप्ताय- न्यः तैप्रा १, १;
 -यम् शुप्रा ८, १.
 वर्ण-संपद- यद्म् माशि १, २.
 वर्ण-संश्लेष- ल्यम् माशि १३०.
 वर्ण-सामान्य- न्यात् या २, १;
 मीम् ८, १, ४१.
 वर्ण-स्नेहो(ह-उ)पपन्न- न्या. जप
 ५२, १, १७.
 वर्ण-स्वार- न. नाशि १, ८, ३.
 वर्णा(र्ण-आ)ख्या- न्याया तैप्रा १,
 १५.
 वर्णा(र्ण-आ)क्रम-गुण-ज्ञाञ-
 न्यम् श्रमा १३, २१.
 वर्णा(र्ण-अ)नुक्रम-मेण विध ६,
 १; १८, ७; २४, १.
 वर्णा(र्ण-अ)नुक्रम-वर्ण(ः) विध ८, ३७.
 वर्णा(र्ण-अ)नुपलविध- ऋधो
 पात्रवा ५, ११.

वर्णा(र्ण-अ)नुपूर्व- ञेण पाथी २३,
 ४, ५; आपृष्ट १०, ४; पाथ १, २, ८.
 वर्णा(र्ण-आ)नुपूर्व- ऋधेण पाठ ६,
 ४, ८; वीध १, ३, ११; ८, २;
 गीध २, ४३.
 वर्णा(र्ण-अ)न्तर- नम् श्रत २, ४,
 ४; मीम् १, १, १६९; -रे आपृष
 २, १३, ३; द्विध २, ३, ३.
 वर्णा(र्ण-अ)न्तर-गमन- नम् गीध ४,
 १२.
 वर्णा(र्ण-अ)न्वय- स्वम् तैप्रा २२,
 २.
 वर्णा(र्ण-आ)पत्ति- चोनाम् शुप्रा
 ४, १४९.
 वर्णा(र्ण-अ)विशेष- येण आपृथी
 २४, २, ३५.
 वर्णा(र्ण-आ)श्रम- भागाम् विध
 ३, ३.
 वर्णाश्रम-धर्म- न्यम् वैध १,
 १७, १.
 वर्णाश्रमा(ग-आ)चार-रत्न-
 न्याः विध १, ४७.
 वर्णा(र्ण-आ)धय- न्यः पावा १, १,
 ३९; -ये पावा २, १, १.
 वर्णाधय-न्य- न्यात् पावा ८, ३,
 ६५.
 वर्णाश्रय-विधि- ऋधो पावा ६,
 १, ८५.
 वर्णा(र्ण-अ)धुत-वपुस्- नुपा श्रप
 ३, १, १३.
 वर्णित्- वा ५, २, १३४; -र्णिनाम्
 विध ८, १५.
 वर्णिल- पाग ५, २, १००.
 वर्णा(र्ण-अ)धुत-वपुस्- न्यम्
 श्रमा १३, १३.

वर्ण(र्ण-ए)रुद्वेस- न्याः पात्रवा ४,
 ६.
 वर्ण(र्ण-उ)तर- नः तैप्रा १, २०.
 वर्ण(र्ण-उ)पजन- नः या २, ३.
 र्वर्णक- प्रभ. वर्ण- द.
 र्वर्णक- पाग २, ४, ६९; ४, १,
 १०५^६; २, १११^६.
 वर्णक्य- पा ४, १, १०५.
 र्वर्णक- पा ४, २, १११.
 वर्णका- पावा ७, ३, ४५.
 वर्ण-कार- प्रभ. वर्ण- द.
 वर्णसि- पाठ ४, १०७.
 र्वर्णाम् शैथीका ८८.
 र्वर्णि- पाठ ४, १२४.
 र्वर्ण- पाठ ३, ३८; पाग ४, २, ७७;
 १३३; १३४; २, ९३; -र्णो पा
 ४, २, १०३.
 वर्णव- पा ४, २, ७७; १३३; ३, ९३.
 वर्णवक- पा ४, २, १३४.
 वर्त- √ष्ट द.
 वर्तक,का- पाठमो २, २, ७; -कम्
 गीध २२३; -का पावा ७, ३, ४५.
 वर्तिका- पाठ ३, १४६; -का श्रप
 १, ३२, ३; या ५, २११; -काः
 आपृथी २०, १४, ५१; -र्णकाम्
 आपृथी १५, ८, १२; वीथी.
 वर्तन- √ष्ट द.
 वर्तनाक्ष- (>वर्तनाक्ष- पा.) पाग
 ४, १, ११२.
 वर्तनि,नी- प्रभ. √ष्ट द.
 वर्तव्य- √ष्ट (वरले) द.
 वर्तस्- तौर्णवाम् वाथी ३, ४, ५
 १११.
 र्वर्ति- √ष्ट (आच्छादने) द.
 र्वर्ति-, वर्तितव्य- प्रभ. √ष्ट द.

a) उप = संश्लेष. b) ऋ इति जीधं. c) शब्दान्तरम् इति करं. d) वृत्त. > क्त.।
 अनुत्त- = अनुत्पूर्व-। e) वप्य. f) पणक- इति पागम. g) वृ १०-४४ y द. h) = प्रावार-विशेष-।
 i) = नदी-विशेष, (उपचारात्) तद्वद्व्यवहार-विशेष-। j) वैध १ द.।

वर्ध- वर्धी- √वृ (आच्छादने) द.
 वर्धस्- > वर्धस्- नस्वम् क प्रा १,
 ४६१.

√वर्ध् पाथा. जुरा. पर. ज्येदन-
 पूरणयो.

वर्धकि- पाठभो २, १, १७४.

वर्धन- √वृ द.

वर्धन्तान्दितेपुनर्येभ्यपूर्वमेधः
 वैशि ९४.

वर्धमान- प्रवृ √वृ द.

वर्ध, प्री- पाठ २, २७.

वार्ध- > वर्धी- श्रीं आपथी
 १८, १०, २३१.

वार्ध-वित्त- न्वान् पा ४, ३, १५१.
 वर्ध-वन्ध-कण्ठ- ष्टः वैश ३,
 १४, ७१.

वर्धस्- पाठ ४, २०१; -र्धः अण
 ४८, ७९; निघ ३, ७; वा ५,
 ८५; -र्धोसि आथी ६, ४, १०;
 शोथी ९, १२, ४.

वर्धस्- पाठवृ ४, २०१.

वर्धक- १वर्धक- टि. द.

वर्धती- पाठ ४, २, १५१.

वार्धतेव- पा ४, ३, १५४.

वार्धतेवक- पा ४, २, १५५.

वर्धन्- √वर्मि, र्मिक-, र्मित-

√वृ (आच्छादने) द.

वर्मिन्- पाठ ४, १, १५८७; -र्मो
 वीध १, ५, १३४^{१)}; -र्मिन्
 आणिय १, २, २ : १८; वीध ३,
 १, ५; माण ३, १० : ५; शिष्ट २,

१९, ६.

वार्ध- वर्धिकावधि-, वर्धिण-
 पा ४, १, १५८.

वर्धिन्- √वृ (आच्छादने) द.

वर्धर- (> वार्धक-, र्धिय-) वर्धर- द.

वर्धरीक- पाठ ४, १९.

वर्धि- पाठ ४, ५३.

वर्धतान- √वृ द.

√वर्ध^{२)} पाथा. प्रा. आत्म स्तोत्रे.

वर्ध^{३)}- पाठ ३, ६२; पाठ २, ४, ३१;

पाठा ३, ३, ५६; -र्धम् विघ २०,

५; ५१, १; -र्धस्य कण्ठ ४०,

१; माण १, २१, १; पा ७, ३,

१६; -र्धान् वीध १, ९,

८; वीध १, ९; -र्धिणि आथी

१२, ५, १७; १८; शोथी ३, ८, ३;

शोथी; -र्धार् शोथ २, १, ६; पाठ

२, ५, ३६; वाण ५, ३; वैश; -र्धे

हिथी १७, ७, २८; वीध १,

२१, २; १७; शोथ १, २८,

२; २०; वैश; -र्धेऽर्धे वैश

२, ६ : ११; विघ ५१, ७६;

-र्धेऽर्धः वीधी २४, ३२ : २०;

वाध १७, ६८; ७६; -र्धेऽर्धे

वीध २, १, १; अण ५३, ६, ७;

-र्धेऽर्धः आण १, १७, १; १८, २; १९,

१; आपथ १, २५, ११; २७,

११; वीध २, १, ४१; ४२; विघ.

१वार्धिक- अण वैश २, ९ : १०;

शोथ ४३२; -के वैश ३, २१ : ४.

वर्ध-अण- अण क प्रा १, ६, ७.

वर्ध-प्रा- अण विघ ४३, ३१०.

१वर्ध-प्रमाण- अण तुष २०.

वर्ध-वर्धन- अण वैश ३, २० : १;
 २१ : १६.

वर्ध-शत- अण अण १८१, १, १;

विघ २०, १५; वीध २१, २०;

-तानि आथी १२, ५, १९; विघ

२०, ६.

वार्धशक्ति- अण वीध १०,

१९.

वर्ध-तह- अण माण २, ३१ :

२; वाण ३९ : १९; -स्तानि

अण १, ५०, ४; ५^{४)}; ४१, ३, ४;

शोथ ३७५; ४४०; विघ १९,

१२; २०, १०; -जाय वृद्धे ६;

२०.

वर्धसाहसिक- अण वाध १४,

१५.

वार्धसाहसिक- अण वृद्धे ६, २२.

वर्ध(र्ध-आ)दि- अण अण ६५, ३, ६.

वर्ध(र्ध-अ)न्त- अण वैश ३, २१ : ६.

वर्ध(र्ध-अ)म्यन्तर- अण अण ७१,

७, ३.

२-वर्ध- १-वर्ध कर्मन्- प्रवृ. √वृ

(वधा.) द.

वर्धकारि- अण आपथ ३, १२.

वर्ध-ज- वर्धण-, वर्धत्- प्रवृ. √वृ

(वधा.) द.

वर्धपुष्प- अण वीधी प्र ६ : १.

वर्ध-प्रतिवन्ध-, २वर्ध-प्रमाण-

√वृ (वधा.) द.

a) = वर्ध- (टु. वैश १). b) वैश १ द. c) टु. पा ५, १, १५१. d) पाथे. वैश १ वधिः
 काठ १५, ४ टि. द. (टु. हिथी १३, ४, १० दशम भाष्यम्, पाठा. [४, ३, १५१] च; वैश. धन्वन्ती C. च उभोरण
 रामस्त्विति); e) पठ. > वस. f) 'वर्ध' इति मूले. g) टु १०९८। द. h) पण. i) = मारद-
 विरोध- j) टु १०९४। द. k) टु. पाणम. l) √वृ, √वृष् इति [पठे] BPO. m) = संवन्ध-।
 n) माराधे कन् प्र. o) 'वृष्' इति शीतं. p) वस. q) = संवन्ध-विरोध-। r) तदश्वमयोऽन-
 नित्यर्थे कन् प्र. (पा ५, १, १०९)। s) हेतुवर्धनानिर्वाहं टमि प्र. पू. श्रुतिर्वा। t) अर्थः ?। माराध वपथिवा-
 वा (वेदनशोका- वा वन्धा- इति भाष्यम्।

विर्षवाहिः मासि १०,२
 वर्ष-वर्ष-वर्षा- प्रवृ ✓वृ(वषा)
 द
 वर्षादि- वर्ष- द
 वर्षाली (> ष्ली ✓वृ पा) पाग १,
 ४,६१
 वर्षित्- वर्षिष्ठ- ✓वृ(वषा) द
 वर्षी- वी कौसू १०३,३
 वर्षीयस्- ✓वृ(वषा) द
 वर्ष्यु- -वर्षो काथी ६,५ १४, गुभ
 १,३८६, यासि २,१६
 वर्ष्युक्- पाग २,४,६३
 वर्ष्युक्- वर्षे ज- वर्ष्म- प्रवृ, १-२
 वर्ष्म- ✓वृ(वषा) द
 ✓वर्ह पाषा भ्वा आत्म परिभाषण
 हिताच्छादनेषु, पर प्राधान्ये,
 सुरा पर हितायाम्
 ✓वल् पाषा भ्वा पर सवरणे सवरणे
 व
 वल- (> बालक-)
 वला धवल्- -वल् अप ४८,१०१,
 निष १,१०, या ६ २४, -लम्
 शीशो १,५,२१ वीश्री १८ ३०
 ११ १३ १५, १९, २०, कृदे ६,
 ६४, मासि ४०, -वल्स्य आधी
 १०,२, २० आपधी २२ १५
 ११, वीश्री
 वल भिद्- -भिद्वा^० आधी १४,
 १४,१ आपधी २२ ११, २०,

द्विशी १७,५,१२, -भिदि वीश्री
 २३, ११ ३४^०, -वल्भिदे^०
 वीश्री १८, ३१, १६, १८
 वै विल- > वल्-वर्ष्म- -णात् आपम
 १,१७,५१
 विलग- -न आपधी ११, ११, ८,
 वीश्री ६ २८: १५, वैश्री, -गम्
 आपधी ११, ११, ८, वीश्री ६,
 २८ १२, वैश्री १४ ७ १०,
 द्विशी ७,६,९, गुभ ५ ३५
 विलग ह्व- -ग^० आपधी १२,
 २,१५, माधी २,२, ३, ३२, ३,
 १, २१, वैश्री १४, ९, १२^{१०},
 द्विशी ७,६, ३८, -हल आपधी
 ११, ११, ६, १२, ५ १२, २,
 १५, वीश्री ६, २८ ११×२,
 वैश्री, -हलम् माधी २ २,
 ३, ३३ ३४, ३९, -हलौ^०
 आपधी ११, १२, ७, १३, ४,
 वीश्री ६, २८ ३८, ४१-४२,
 वैश्री १४, ९, २, ४, ६, ७,
 द्विशी ७, ६, २८ १२, -हा
 आपधी १२ २, १५, द्विशी ७, ६,
 ३३^{१०}, ३५^{१०}
 विलगनी- शी^० माधी २ २,
 ३, ३६, ३७
 विलगिद्- -गिन्म् अप ४६, ४, १,
 ५५
 वलत- पाठगो २,२, १३५

वलभि- पाठगो २,२, २२९
 वलभिकि- कप- वीश्री १७ ९
 वलमो- पा, पाग ४, २, ८२
 वलव- पाउष्ठ, १९, पा पाग २, ४, ३१
 वलाहक- वलाहक- द
 वलि, ली- पाठगो २, १ १६३, पाग
 ५ २, १००, -ली कौसू २५५
 वलि म- पा ५, २, १००, -म
 शीश्री १६, १८, १८
 वलि म- पा ५ २ १३९
 वली-वलित- -लम् शीश १५२ १
 वलीवलित-द्वीन- ने विष
 ९४, १
 वलीवलित भूषिष्ठ- ण अप
 ६८, १, ११
 वलिक- (> वलिकाप- पा) पाग
 ४, २, ८०
 वल्लिशान- न अप ४८, १०१^०
 निष १, १०^०
 वलीक- पाउ ४, २५, -कानाम्^० कौसू
 ७७, १७, -कानि कौसू ७५
 १०^०, -कौ^० कौसू २५ ३७,
 ३०, १३
 वलीक क्षार-प्रचुति- डि माध १
 ४ ६, अप ८ ६
 वलीक पल्ल-उवाल- -लव कौसू
 २२, ८
 वलीक-सतान- -नम् शीश १६, १४
 वा वल्लूक- पाउ ४, ४०

a) पाठ १ वर्षो (सं १। <वर्षु-), वरिहि इति द्विवद शोध (हु मूले, सपा यासि २, १५ १६)।
 b) वैष १ द। c) पामे वैष २ वर्षीय ते १ ३ ८, २ टि द। d) -वप। वर्मक- इति पाठा। e) हु १ पशु।
 BPO। f) हु ११५९ हु द। g) द्विशी पाठ। h) = एकाह-विशेष। i) व्यु पाष च वैष २ वनकुल-
 टि द। j) पामे वैष १ वलगान् मे १, २, ११ टि द। k) 'लख इति पाठ १ यन्नि शोध (हु
 आपधी प्रवृ)। l) पामे वैष १ वलगान् मे मा ५ २५ टि द। m) 'ह्व इति पाठ १ यन्नि शोध (हु
 वाठ २, ११)। n) = ऋषि विशेष-। o) = वल्ल-। व्यु वैष ३, ७४१ n द। p) = लक्ष शैथिल्य (हु
 मेपातिमि। मयु ६ २)। व्यु १ < ✓वल् (सवरण) इति अभा। q) = वर्त-। r) = मेघ। s) = पल्ल
 प्रात। t) = [वर्षलवर्ष] रट-नृण। u) द्रव > वृ। v) पस। w) = लोहित-वर्ण। लोहित-प
 ह्व-वेत काधी २२, ४, २२ भाष्यम्।

बर्लोकान्त (क-अ) स्त- -वादि
काथी २२, ४, २२; आपथी २२,
५, ५; द्विथी १७, २, ३५; काथी
८, ६, २०.

बर्लोपा(प-अ)प्रसिद्धि- २व- द.
✓बर्ल् पाथा. चुप. पर. परिमापणे,
वम. दर्शने.

बर्ल्क- पाठ ३, ४२.
बर्ल्कल- पाठो २, ३, ११६; पाय
२, ४, २१; -कम् वैष १, २, ६;
२, २, २.

बर्ल्कल-वत् वीष १, ६, १३.
बर्ल्कलो(ल-उ)पवीता(त-आ)दि-
-वीम् वैष २, ५, ८.

✓बर्ल् पाथा. भ्वा. पर. पत्नी >
बर्गव- > वा(न-आ)स्कोटव-
प्रिय- -या: अप ६८, १, ४३.

बर्ल्का- -ला: माथी ८, १, १५१६.

बर्ल्का- पाठ १, १९; पाय ३, १, २०^१;
५, ३, १०८; -पुंल्लु: आपथी
१५, १४, ४; वीथी १, १४: १०;
माथी ११, १४, ४; माथी ४, ४,
२०; वैथी १३, १६: ९; द्विथी
२४, ६, ६; निष १, ११^१.

बर्ल्का- पा ५, ३, १०८.

बर्ल्क-वम- -मम् द्राथी ३, ४, २१^१.

✓बर्ल्क पा ३, १, २०; पुंल्लु: अप
४८, ९; निष २, १४^१;
श्रमा ९, १६.

बर्ल्का- (वालाव्य- > ष्पाय(न >)
नी-] पा.) पाय ४, १, १०५, १८.

बर्ल्का- पाय ४, २, ८२.

बर्ल्कल- पाठो २, ३, ११०; -ल:
शंष ३७८^१.

✓बर्ल् पाथा. भ्वा. आत्म. भोजने.

बर्ल्कल- > ली- > १ वल्मीक, का-
पाठो २, २, २०; पाय २, ४,
३१; ४, २, ८६^१; -क: भाप २,
३२: २; द्विथ १, १७: ५; अप
७०^१, ७, १; नाथि २, ८, २१;
-कम् वीथ ३, ६, १; जैथ २,
७: ३; -कम् नाथि २, १०८;
नाथि २, ८, २०; -का: अप ६७,
२, १; -कम् माथी ६, १, १, १४;
-कम् आपथी १०, २०, ७;
-कम् पाथी २, १, १, ७; -के
वैथी २०, ५: ३; अप ७२, २,
११; विष ६०, १०; वाप ६, १७;
-केन वीम् ३१, २६; -केयु
अप ६४, ५, ६.

बर्ल्कल- -कम् वीथ ४, ६.

बर्ल्कल-वर्षिका- -क काष
२७६: ६.

बर्ल्कल-वर्षा- -वषा आपथी १८,
८, १४^१; द्विथी १३, ३, २४;
-वा वापथी ४, १०४: ७; शुभ
४, ७४; -पाम् काथी १६, २,
३; १४; २६, १, ३; आपथी ५,
१, ७; १, ८; १, २, ४४४; वीथी;
-पाया: आपथी १६, २, ८;
वैथी १८, १: २४; द्विथी ११,
१, १६; -पायम् आथी ३,
१०, २३; आपथी ८, १८, ९;
९, २, ४४४; वीथी; -पाय

वीथी २२, १: ८.

बर्ल्कल-वर्षा-प्रतिनिपात- -वम्
वैथी १८, ४: ५.

बर्ल्कल-वर्षा-सुधिका- -का: अप
१, ४४, ५.

बर्ल्कल-वर्षा- -रसि वीम् २१,
२३.

बर्ल्कल-संभूति- -ति: आप ५,
११, १.

बर्ल्कल-वर्षा- -वेष वीथ ३,
१०, ३.

बर्ल्कल- > का-वर्- पा ४, २,
८६.

बर्ल्कल-वर्षा- पाय ४, १, १६.

बर्ल्कल- पा ४, १, १६; पाय ४,
२, १३८^१; -कि: वीथी ३: ७;
-किम् शंष ११६: ४४; -के^१

तीष ५, ३६; १८, ६.

बर्ल्कल-वर्षा- पा ४, २, १२८.

बर्ल्कल- > बर्लोपक- पा.) पाय ४,
२, १५.

✓बर्ल् पाथा. भ्वा. आत्म. संवरणे संव.
रोषे च.

बर्ल्कल- > बर्ल्कली- पाठो २, २,
७^१; पाय ४, १, ४१.

बर्ल्कल-वर्षा- पाठ ३, १२५; पाय ६,
२, ८४^१.

बर्ल्कल- पाठो २, १, १३०.

बर्ल्कल- पाठो २, ३, १३४.

बर्ल्कल- पाठो २, १, ११३; पाय
४, २, १२७^१; -ली: अप ६८,
२, २२; -कम्: अप ७१, १५, २.

a) आपथी. द्विथी. पाठः । b) वस. । c) = वृक्ष-वृक्ष- । d) इत्, > वस. । e) = मत्स्य- ।
f) वैष १ द. । g) पाठो. पृ १६८ म द. । h) = वृक्षा, माधुर्य- । i) = वाप- । j) धा. अर्थायां वृत्तिः ।
k) धा. मनी वृत्तिः । l) = पक्षि-विशेष- । m) १ वल्मीक- (तु. वैष १) । n) तु. वागम. । o) वल्मीकम् इति
संस्कृत- शोषा (तु. आदिशब्दार्थने: मूको. च; वैतु. देवपायः बलि. एव) । p) = वल्मीक- । q) व्यप. ।
r) वासिमकि- इति (फले) माण्डा. पासि. । s) = आचार्य-निरोध- । t) = वीणा- । u) पाठ. पाठः ।
v) पृ १५४७ पृ द. । w) पृ १५४७ म द. ।

वाटक- पा ४, २, १२७.
 वरलो-गुलम-स्ता-स्तेदिन्- दी
 विध ५, ५७.
 वही गुलम लवा-वृक्ष- -आणाम्
 वीध ३, ३, ५
 यल्लूक- पाठना ४, ४०
 यल्लूर- पाठ ४, ९०.
 ✓वर्त्त पाषा २भा आराम परिमा-
 पल्लहिताच्छादनेषु
 यव- पाण १, ४, ५७
 यवाजिषम्, यवहंसी- ✓रू द
 विविपिपु अप ४८, ६८१.
 यवृषत्- ✓रू द
 यत्र^१ - न विध ३, २३१
 यवत्रि^२ - वि अप ४८, ७९, निध ३,
 ७, -मिग या २, ९४
 यमु- पाठगो २, १, २०
 यवृग् (यवा) पाषा अदा पर
 कान्ती, यवा आधौ ४, ११, ६
 यष्टि निप २ ६, उरान्ति आशि
 १, २६, वरिम अप ४८, ३१, निप
 २, ६, उरान्ति, > सी भाधौ ७,
 ८, १०, अप ४८, ३, निप २,
 ६, या २, ७४, कप्रा ८, ४५,
 तैप्रा ३, १३, यण्ड या ११, २६
 यडय- -शत आधौ १, ६, २,
 आपधौ २४, १३, ३, वीधौ, या
 ६, १३४, -शर आधौ ५
 १६, १, आधौ ७, २२, ६, ८,
 १०, १, आपधौ, -शन्त. आधौ
 २, १९, ६, आधौ ३, १६, २३,
 आपधौ, या ५, १८४, -शन्तम्
 वीधौ ६ १५ ९, भाधौ १०,

१८, ६, -शन्ता आधौ ८, १०,
 १, वृदे ६, १८.
 उराली- यंती आपमं २, ११, ६,
 पाण्ड १, ४, १६; आमिष्ट १, ५, ३
 ११, वाण्ड, -ती आधौ १,
 १०, ५, ५, २०, ६, आपधौ १०,
 ३०, १५, भाधौ १०, २१, १४,
 हिधौ, -तीम् वीस् ४, २,
 -त्य या १२, ४५, -त्यौ या
 ९ ३९
 उवश, शा^१ - पाषा ३, ३, ५८, -श
 वाधुधौ ४, ५९ : ८, अप ३५,
 २, ९, आपध २, ७, १४१, हिध
 २, ३, ३३१, अत्र १५ १११,
 या ५, १३, -शम्^२ शाधौ १३,
 २४, १४, आपधौ २२, १६,
 १०१, वीधौ ४, २ ३९, ६, ३०
 १९, वाधुधौ, -शा अप ५, ५,
 २, -शा अप ३५, १, ९, २, २,
 -शाव् वृदे २, ९३, -शान्
 आपधौ ३, १५, ५, वीधौ ५,
 १५ ११, आधौ, हिधि १८
 १०१, तैप्रा २, २१, -शे
 काधौ १०, ८, ३१, आपम
 २, ११, ३२१, आमिष्ट २,
 १, ४ १६१, भाण्ड १, २५
 ९१, हिष्ट २, ४, २१, वीधू
 यश-वद- पा ३, २, ३८
 यश गमन- ने या ६, ३२, १०,
 ४०
 यश-वाम^३ - भावि ऋप्रा ४,
 १४१, -यंती गोष्ट ४, ८, ८,
 दाण्ड ४, २, २४, कप ३, १०, १७

यवश-नी^४ - नी. आमिष्ट ३, ६,
 १ : ५, वीधि १, ८ ५
 यवा-वर्तिन्- -०तिन् विध ९८,
 ५२१.
 यशिन^५ - शिना काधौ ९, १३,
 २०१, १०, ३, ७१, -यंती आधौ
 १, ११, १, ६, २, १२, ३, १६, ८,
 १, ७, शाधौ १०, ११, ९ आपधौ
 यवशिनी- नी आपधौ १९,
 १७, १०, वीधौ १०, ४९ ११,
 १४, १५ : ११, १२, हिधौ,
 -यंती आमिष्ट १, १, ३ ४४,
 हिष्ट १, ६, ५
 यशी ✓रू > यशी करण- यव
 पाण्ड ३, १३, ७
 यशी-कर्तुम् अप ३६, ५, १, ३,
 ७, १.
 यशी-कुर्वन्- -वृत् अप ३५,
 १, ६.
 यशे ✓रू पा १, ४, ७४
 यशय- पा ४, ४, ८६, -यव
 आपध ९, ७, -यवम् अप ३५,
 ३, ५
 यशय^६ -> यशय-कर्मन्- -नी
 अप २१, ३, २
 यशय(शय आ)दि- ही अप
 २५ १, ११
 यशयवशान, वा^७ - न निप ४, ३,
 या ५, १४, -ना गा १४ १४,
 १५
 यशय^८ - श शाधौ १६ ११, २३, कप
 २ ८, ४६, साव १, १९३, २०६,
 २९५, -शम् शाधौ १८, १४, १९,

a) = वृष-1 b) वैप १ द 1 c) वा ५, १; ६, १०, १२, ५ पा ६, १, १६, २० परासुष्ट इ ।
 d) भावे क्वीरि च प्र । e) वचन्दि वा क्विदि । f) पामे वैप १, १३४८ h द । g) यवा आपमं
 २, १३, १ गृहे इति पामे । h) वस उप ४/यम् + खच् प्र (यवा ३, २, ३८) । i) = व्याज्जनसधिविशेष ।
 j) = निष्पु-1 k) = रिक्त-1 l) = देवी विशेष-1 m) भावे वत् प्र । n) = प्रापि विशेष ।
 o) = (उपकारात्) तदृष्ट- सून- ।

-भाव भूदे ६, ७५, -सो श्राप
१७, २९
श्राप- -शाम् श्राप्री १६, ११,
२२
श्वशा- ✓वस् द
श्वशा- पा २, १, ६५, पाप ८, २, १,
-श्या बौध्री १४, १४ ८, १७,
१५ १, ३, माध्री ६, २, ६,
२४, बाध्री २, २, ५, ८, कौव्
४५, १९, -सा आध्री ९, ४, ५,
शोध्री ८, १२, ५, १४, २, १५,
२१x, आध्री, कौव २, २,
६३, -शा आध्री १६, ३२,
४, १९, ३, २१, २०, १४, ७, १,
२२, १०, बौध्री, -शानाम्
माध्री ५, २, १०, ३२, -शाम्
आध्री १२, ७, १२, काध्री १४,
२, ११, १५, ८, २२, आध्री,
-शाया काध्री १४, २, २१, काध्री
३, १, २, ४४, अम १०, १३, १,
-शायाम् शोध्री १३, ३, ५, हिथ्री
१७, ३, १२, कैध्री २५ ५,
दाध्री २, २, ४८, लाध्री, -शायि
बौध्री १३, १६ ११, १४,
१४ २६, २१, २४ ७, २६
२, -शंभो आध्री ९, १८, २,
बौध्री २८, ६ १०, वैध्री २०,
३५ २
२वाध- -शाम् वाध्री ३, २, ५,
४५
३वाध- -शाम् वैध्री २५ ५
दाध्री २, २, ४८, लाध्री १, ६, ५५
यशा-शमभ- -शं काध्री १३, ३, १६

श्वशा(शा-श)का- -शाय आध्री
५, ५, १८, आध्री १६, ३५, १,
बौध्री, १३, ६ २, हिथ्री
यशा-शुशुरोडास- -शाम् वैदाध्री
२४, १३
यशा(शा-श)भाव- -वे काध्री १०,
१, १५
यशा-श्व- पा ८, २, ९
यशा(शा-श)यदान-काल- -के
काध्री २५ १०, १०
यशा-यश-मचरण- -शाम् काध्री
१४, २, १६
यशा वपा-मार्तवा(न-अ)उ-
शाम् काध्री ८, ८, ३७
यशा वद् मीव् २, १, १५
यशा विधानी- -शै काध्री ३,
६१ ८
यशा शमभ- -शाम् कौव् ४४, १
यशा(शा-श)का- -का वैध्री १८,
२१ ७, हिथ्री ११, ८, ९
श्वशा- -शशा माध्री ५, २, ६, ५, ५, ५, ५
यशा- -पाप २, ४, ६३, ४, २,
८०
याशिहावनि- पाध, १, ८०
यशा- -पाप २, ४, ६३
यशमसा (>सा/कृ पा) पाप १,
४, ६१
श्वशा- -शाम् ३, ११, १४
✓वष् पाधा भा पर दिवायाम्
यपट्^१ आध्री ३ ११, १४, शोध्री १,
८, ८, काध्री, माध्री ४, ३,
२६, हिथ्री २४, ४, ११, १,
पाप १, १, ३७, ४, ५७, ६१

वपट्/कृ पा १, ४, ६१, वपट्/करोति
शोध्री ५, १९, १७, ९ २०, ३२,
१०, २१, २, आध्री ५, २८, ८,
८, १५, ११x, बौध्री, वपट्-
कुर्वाव आध्री ९, ७, ११, शोध्री
१, २, १८, आध्री
वपट् करिष्यत्- -श्वम् या ८,
२२, १
वपट्/कृ- -ता आध्री ५ ९,
२८ शोध्री ७, २, १४, आध्री,
-तार आध्री ५ ३, १२, ८, ८,
बौध्री ७, ११ ७ वैध्री १५,
२४ ६, -तु काध्री ९, ५, २७,
२९, बौध्री १७, ४ १३, दाध्री,
-तुशाम् वैध्री १५, ३१ ७,
२१, १२ ५, हिथ्री ८, ५, ३८,
-तु कैश्री १३८
वपट्/कार- -शंभ आध्री
२४, १४, १२, बौध्री ३, २८ १८,
हिथ्री, -र आध्री १, ५, ५, १५,
१८, २ १९, १९, ८, १३, १७,
शोध्री १, १, ३४, ३६, काध्री,
निव् १ ३३ २, आध ३, ५, १,
कौव २, ५ १, शोध, -रम् आध्री
१, ५, १७, काध्री ३, १८ २,
४, ४, ५९ ९, हिथ्री २१, २,
४५, -रयो हिथ्री ८, ७, ४०,
-रम् शोध्री १, १, ४२, माध्री
४, ३, २७, हिथ्री, -शंरा
आध्री ४, ११, ६, बौध्री ३,
२८ २१, माध्री, -शंराम्
बौध्री ३, २८ १७, आध १,
१२, ३, हिथ १, ४, ३, -रत्

d) = [तास गंधर] आसवान । तस्येदगीम अष् प्र । e) वैष १ द । c) = वन्या-मन्त्री ।
d) विकाराधं अष् प्र । e) = साम विशेष । f) वष > वस > वष । g) = श्वशा-
विशेष- । मलो वष । h) श्वशा-(तु वैष १) । i) श्वष । j) यशित्- + ष- (<✓रवा)
इति पापम । k) तु पापम । l) रूपं । m) पाठ । (तु टि रतास पाप ३, १, ६) ।
n) पाधो वैष १, ८२५ अ द । o) = (शेवर्तुव) शैवट्-मात्र-(तु सा शेषा ३, ५) पासा. [१२, २, ३५) ।

आधौ १, १२, २१; काधौ ३, ३, १६; आपधौ; -राय चाय ३०: २१; -रे आधौ ५, ६, २३; दाधौ १, २, १३; माधौ; मीधू १२, २, ३५; -रेडरे माधौ ३, ८, ६, ६; -रेण आधौ १, ३, २२१; काधौ १८, ४, ४; आपधौ; -रेषु दाधौ १३, २, ८; २, ५; -रौ आधौ २, १६, १५.
वपट्कार-क्रिया- -वायाम् काधौ २, १९, २७.

वपट्कार-गि^०, निघन^०-
-न्म् काधौ २५, १२, २३; आपधौ १४, २५, ११; माधौ ३, ६, ११; द्विधौ; छुम् १, ४: ६; ९: ४; १३; -नात् छुम् १, ४: १०; १: ९, १०; -नेन दाधौ १३, १२, १; वैधौ २१, ११: ५.

वपट्कार-गिघन-ग्रह-सामन्^०- -मा छुम् १, ९: ११.
वपट्कार-निमित्त^०- -तः वैधौ १५, ३१: ७.

वपट्कार-पय- -यः वौधौ १६, ९: ५; ६; -येन वौधौ १६, ९: ४.

वपट्कार-अदान^०- -नाः काधौ ३, २, ६; -नानाम् माधौ १, ६, ४, ६.

वपट्कार-व(त्)>ती- -तीः माधौ १, ३, १, ३१.

वपट्कार-ववाप- -ये द्विधौ ८, ७, ४०.

वपट्कारा(र-ञ)नुसम्प्रण-
-णम् आधौ ८, १३, १८.

वपट्कारानुसम्प्रणा (ए-अ)निदिक्कार-वजन्म् आधौ २, १९, ३.

वपट्कारा(र-ग)नुवपट्कार-
-रे वैधौ १५, ३६: १६; -रेण वैधौ १७, १७: ७; -रौ आपधौ १२, २८, १; १८, ७, ४; २१, १०, ८; द्विधौ ८, ८, ३३; १३, २, ३१.

वपट्कारा(र-ञ)नुवपट्कृत-
-ते द्विधौ १५, ७, ९.

वपट्कारा(र-ञ)न्त^०- -न्ते वाधौ १, १, ५२.

वपट्कारा(र-ञ)न्त^०-
-न्तेषु वाधौ १, ६, ७, २३.

वपट्कारान्ता(न्त-आ)
प्यायन्^०- -नान् वैताधौ १५, २.

वपट्कारा(र-अ)न्वप^०-त्व-
-त्वात् आधौ ५, ६, २३.

वपट्कारि(र>)णी- -णयः निम् ३, ८: १४.

वपट्कारेणा(ए-अन्त)>-
न्ता^०- -न्ताः अत्र १५, १४.

वपट्कारो(र-उ)पदान-
-नाम्भ्याम् काधौ १०, ६, २२.

वपट्-कारम्-वपट्-कारम् माधौ ७, २१, ११.

वपट्-कारिन्- -रिणः दाधौ १०, १२, १२; -रिभ्याः काधौ ९, ६, १.

वपट्-कृत- -कम् आपधौ ३, ११, २; वौधौ १, २१: ३; माधौ; -नात् वौधौ २७, ४: २५.

-तानाम् वैधौ २०, २४: १०; -ते आधौ ४, ७, ४; ५, १८, २;

शाधौ; -तेऽन्ते आपधौ ७, २१ ११; १३, १२, ७; -नेन माधौ २, ५, १, १०; ४२; २, १४ ४, ३, २६; ५, ६.

वपट्कृता(त-अ)नुवपट्-
कृत^०- -न्तः वौधौ २१, २२: १.

वपट्कृता(त-अ)नुवपट्कृत-
-न्तान् आपधौ १२, २३, ४०; वैधौ १५, २९: १२; २८: ११x४; द्विधौ; -ते आधौ १२, २३, १७; २६, ६; २८; १४; १३, १६, ७x४; वौधौ; -तेषु वैधौ १५, ३०: १४.

वपट्-कृति^०- -तिः वैधौ १६, ४४.

वपट्-कृत्य दाधौ १, १, ३, ५, १०, १८; २१; आपधौ; वपट्-कृत्यवपट्-कृत्य द्विधौ २१, २, ४५.

वपट्-क्रियमाण- -णे वैधौ ६, ६: ३.

वपट्-कृत्य दाधौ १, १, ३, ५, १०, १८; २१; आपधौ; वपट्-कृत्यवपट्-कृत्य द्विधौ २१, २, ४५.

वपट्-क्रियमाण- -णे वैधौ ६, ६: ३.

वपट्-क्रियमाण- -णे वैधौ ६, ६: ३.

वपट्-क्रियमाण- -णे वैधौ ६, ६: ३.

वपट्-क्रियमाण- -णे वैधौ ६, ६: ३.

वपट्-क्रियमाण- -णे वैधौ ६, ६: ३.

वपट्-क्रियमाण- -णे वैधौ ६, ६: ३.

वपट्-क्रियमाण- -णे वैधौ ६, ६: ३.

वपट्-क्रियमाण- -णे वैधौ ६, ६: ३.

वपट्-क्रियमाण- -णे वैधौ ६, ६: ३.

वपट्-क्रियमाण- -णे वैधौ ६, ६: ३.

वपट्-क्रियमाण- -णे वैधौ ६, ६: ३.

a) छुम्, पाठः । b) वैव १ द. । c) पय. । d) =वपट्कारान्तर- । e) वप. वप. =मन्त्र-विशेष- । f) विप. । कन. । g) =वपट् । h) इदे ५, १५९ वा १०, १६ वा १, ८९; ६, १, १५; ८, ३, ९० पाठा ३, २, ११० परामृष्टः द. ।

छ, ७० : २, ण्वस आसिष्ट १,
 १,३. ३३, माष्ट २, २८. १;
 द्विष्ट १, ५, १३, ण्वसामि माष्ट
 २, ३२ : १५, वीष १, २, ५४,
 अयसन् शोभ्री २६, ९, १६१;
 वसेव आपभ्री ५, २५, ४, ६, २८,
 ५, २, १, १०; भाभ्री ५, १६, १३.
 माभ्री, वसेयु माभ्री ५, २,
 ६, १४, लाभ्री ८, ३, १९, १०,
 १६, ७, माष्ट २, ३, ७, शंघ
 २७२, ण्वसेम माभ्री २, ३, ७,
 ५, पाष्ट ३, २, २
 उवास वीभ्री १८, ४४ : १६,
 ४५ : २१, वृदे ७, ४२, अणतु
 शोभ्री १५, १७, १, वृदे ६, ३५,
 या ३, १५१, वस्त्वामि वीभ्री
 १८, ४५ : १९, शाष्ट २, १८,
 २१, ण्वस्त्वाम कौष्ट २, ८, ८,
 आसिष्ट १, १, ३ : ३२, वैष्ट २,
 ६. ७, द्विष्ट १, ५, १३,
 ण्वस्त्वाम आष्ट ३, १०, २,
 माष्ट २, २८ : ६, ७, अवाप्सिष्ट
 वीभ्री १८, ४५ : २, वाप्सीम्
 वाभ्री १५, ३, २१, ण्ववाप्सी
 आपभ २, ७, १३, द्विष्ट २, २,
 ३०, अम १५, ११, ण्ववाप्सीः
 वीभ्री १५, ३७ : ४, वाष्ठी ३,
 १९. ८.
 वासपति वाभ्री ८, ८, १६,
 आपभ्री १४, ५, १२, १७, ४,
 ८, माभ्री, द्विष्ट ९, ८, ७^० x x,
 वासपति वीभ्री १७, ११ : १५,
 वासवे वाघ २०, २६^०, ण्ववासव
 द्राभ्री १३, १, १४^०, १५, वासवेत

लाभ्री ५, १, १२^०, वासवेव
 द्राभ्री ५, २, ४, लाभ्री २, ६, १;
 गोष्ट ३, ८, ७, द्राष्ट.
 उपित- वा ३, ४, ७२, ७, २, ५३,
 -अय वैष्ट ५, ९ : १; -गामि
 वा १४, ६, १, -वे वैष्ट ३, १६ : १.
 उपितवत्- वा ७, २, ५२.
 उपित्वा आपभ्री ६, २८, ६, वीभ्री.
 उव्य पाष्ट २, ११, १३
 वस्वय- -व्यन् वीभ्री ६, १ : ११;
 कौष्ट १७, ३०.
 वसव- -सत वाष्ठी २, ७ : २,
 वाअ १६ : १२, -सताम् आपभ
 १, ५, १३; द्विष्ट १, २, १३,
 -सतो वृदे ६, ३६, -सवु शाष्ट
 २, १७, २, वीष २, ३, ५३,
 विष, -सन्त काभ्री २४,
 ६, ५, पाष्ट १, १२, ४, वैष्ट
 १, ९, ४^०, -सन्तम् वीभ्री १४,
 ५ : २९.
 वसन्ती- -न्ती वृदे ६, ४०.
 वसति, वीभ्री^० - पाठ ४, ६०, -अय.
 विसु ५, १२ : ९, -वि. आपभ्री
 २०, ५, १८, वैताभ्री १२, १,
 विष १, ३२, क्षमा ४, ६२, १,
 शुभा ३, १३, -सिम् द्विष्टि
 १४ : ४, वाघ १०, १०; शंघ
 ३७०, विष ९६, ३०, ३७, ९९,
 ६, सुष ५५, -व्या या १०,
 २१, १, -र्ये आपभ्री ५, २५,
 ५, २, ३, ८, माभ्री ५, १६, १४, २,
 ४, १०, वैष्टी.
 वासवेष्ट- वा ४, ४, १०४.
 वसति-अम- -म द्विष्ट १, १७,

३१.
 वसती-व(√>)री^०- -री.
 आभ्री ४, १९, ८, शाभ्री १४, २२,
 १९ x x, काभ्री, -रीणाम् शाभ्री
 ८, १५, ६; आपभ्री ११, २०,
 १३, वीभ्री ७, ४ : ९ x x, माभ्री,
 -रीणि काभ्री ९, ३, ३, ३, ३,
 आपभ्री १२, ५, २, ७, १०;
 ९, १, वीभ्री ७, ३ : ९; २९,
 १ : ४, १४, माभ्री, -रीम्य
 आपभ्री १२, ६, १; १३, १, ३;
 वीभ्री ८, १ : ४ x x, वैष्टी; -रीषु
 आपभ्री १४, ९, २, १७, ३, २१,
 २४, ३, २२, ८, १६, वाभ्रीत,
 -येः शाभ्री १४, ४०, १०,
 ४१, ९, वाभ्री ३, ३, १, ५९;
 द्राभ्री २, ४, ७.
 वासतीवत्^०- -र वाष्ठी
 ४, ७० : ४, ७३-७४ : १, -रम्
 काभ्री २५, १३, २३; -रस्य
 वीभ्री २५, ११ : १, -राष्ट
 वीभ्री २१, १७. १, -रे क्षम
 २, १, १६६; वृदे ५, १७९.
 वासतीवत्^०- -राणाम्
 वाअ ३. ५.
 वसतीवत्-प्रहण- णम् वाभ्री
 ८, ९, ६, १३, ४, २७.
 वसतीवत्-मृतीय- -यम्
 काभ्री ९, ३, १८.
 वसतीवत्-परिहरणा(ण-प्र)
 दि^०- -दि वाभ्री १२, ४, २.
 वन्वीवत्-रुष्ट- -त्. वीभ्री
 २९, ६ : १७, -रम् वीभ्री ८, ८ :
 २७, -वे वीभ्री १६, ३ : ५

a) परस्पर पति । b) परस्पर पात्रे । c) वा. श्रौंग्ने वृत्ति । d) परस्पर पात्रे । e) माघ
 (विशाल-), नाघ. (एह- प्रष्ट) । f) वैष्ट १ द. । g) विष्ट (२४२) । h) विष्ट. (उदक, इन्म- प्रष्ट) ।
 तस्मैदनाद्ये भूमि प्र वा उगयपदद्वयि । i) वसत् इति पाठ ? यत्नि. शोष । j) ण्विष्ट इति
 धर्यु । k) ण्विष्ट इति धर्यु ।

वास्तु शनन- नम् वीष्ट ३, ५,
१, २, १, भाए २, ५ १, हिष्ट
१, २, ७, ९, २८, २

वास्तु सस्कार-कर्मन्- संनि
अशा १७, ३

वास्तु सवन- -नम् वैष्ट ३,
१६ १, -नस्य वैष्ट ३, १६
५, १७ १६, -नेन वैष्ट ३,
१६ ४

वास्तु होम- -नम् वैष्ट ७, ४
१, -मे मीस् ८ ४, ३

वास्तुहोमो(म ल)थालहोम-
सी वैष्ट ६, ४ ११

वास्तोष् पति- -कृतथे आषथी
१३ २०, १, वीथी २८, ९

१५ वैथी १६, २४ २,
कीष्ट ३ १०, ५, शीष्ट २, १४,

५ काष्ट ५४ १९, वीष्ट २, ८,
३३, ३, ५, १८, वाष्ट १७,

४९ वैष्ट ३ ७ १०, कीष्ट ४३,
१३, ७४, २, आषथ १, ३ १,

२१, निष ६७, १९, हिष्ट १,
८, ४०, -ति वीथी १४, १९

१७, अष ४८, १३७^१, वृदे १,
१२३, ६, ४८, साष्ट १, २७५,

अशम् २, या १०, १६९, -विष्
वैष्ट २ ६ ५, वृदे २, ४४,

-तीन् अश १ ३१, ७, ६०, -ती
अष ३३ ५, ६

वास्तोष्यति गण- -नस्य
अशम् २

वास्तोष्यति शाला-द्वय-
नम् अष ३, १२

वास्तोष्यतीष- पा ४, २,
३३, -य अष ३२ १, ५^०,

-यम् शाथी २, १६, १, आपथी
६, २८, १, वीथी १४, १९

१७xx, भाथीष्ट, ६, ७, वैथी २,
११:३, हिथी ३, ८, २, ६, वीष्ट

३, ५, २, वीथ ३, १, १०, -यस्य
काष्ट १२, १, -मानि^० कीस्

८, २३, अष ३२, १, ५, -ये
वीथी २४, १७ ३, शीष्ट ३,

४, १, -येन वीष्ट ३, ५, ५, -ये
कीस् ४३, ४^०

वास्तोष्यत्य- पा ४,
२, ३२, -स्य अशा २३, १^०,

-त्यम् वाथी १, ५, ४, ४०,
गाष्ट २ ११, १९, अष ७^०, १०,

६, अषथ २, ७, ५४, अश १,
३१, ५ २७, ७, ६०, -त्या

अशा १६ १^०, अशथ २ ७, ५५,
-त्या वृदे ६, २, -त्याम् अशा

१७, २^१, १८-१९, ५, -त्ये अश
५ १०, -त्ये^० वैताथी ५, १०,

कीस् १२०, ९, अष ३३, ५, ६
वास्तोष्यत्य-गण- ग

अशा १८, ५
वास्तोष्यामा(व्य आ)दि-

-दिमि अष ३०^१, १ १५ -दीनि
कीस् ४३, ५^०

२वास्तव्य- पावा ३ १, ९६
१वास्त^०- न्य दिष्ट २ ५ २१६^१

√वस्^० पावा अदा आल आच्छादने,
वस्ते शाथी ३, ८, १२, वाथी ४,

७, १२, ७, २, १५, २२, ७, १७,
आषथी, वसते शाथी १८, २४,

४, ७, या ७, ३१^१, वीथसथे
आथी ३, ८, १, गाष्ट ३, ८, ९,

वीथित्य, > त्या आथी ४,

१३, ७, अशथ २, १, २६, वृदे ३,
९९, अश्रा ७, ३३, वष्यस्

शाथी ४, ५, २^१, वसीत आपथी
१३, १९, ८, भाथी ५, १३, ९,

वैताथी ११, २१, वीष्ट ५, १,
१४, आश्रित, वसीरन् आष्ट १,

१९, ११^१, आश्रित ३, ६, २
८, वसीथा वीथी १८, ४४

१५
वसिष्ट आथी ८, १, ८^१

वास(य>)या अश्र ८, २८
वसन्- -नम् आथी १, ६, १०,

काठथी १४६ भाथी १ ६, ४,
२८, २, ५, ४, ३४, वाथी, विष

२७, २८xx, -नस्य शाथी
१५ १३, १५, वीथी ६, २^०

९, ३ ८, ५ १२, १३,
१९xx, आथी, -मानि वीथी

११, १^० ७, आथी ११, ४,
१६, काथी ८, ६, २०, गोष्ट

२, १०, ७, वैष ३, ५, ११,
-नानाम् वीथी ११, ६ २७,

१२, ७ ३८, -नाथ या ८,
९, -ने आथी ४, ४, ७,

माथी १, ५, ६, ८, २, ४, ४, २,
कीस् ५३, २, ८३, २०xx, -नेन

आथी ५, २, ४, ५, काथी २,
६, १, २, निष् १, ११ ८, १२,

गोष्ट २, १, १७xx, कीस्
१वासन- पा ५ १, २७

वसन्-कनक-दान-> न-देव
पुत्रानुरागोदनिषेधित- -मानि

अष ६८, २, ६२
वसन्-कनक- -स्य वाष्ट ६,
२८

a) = वास्तु-वत् (वृ भाष्पम्) । पारुजामन- इति ० । b) वैष १ द । c) = मन्वगण विधेय- ।
d) = शान्ति विधेय । e) भा निरासन इति । f) तावा आपथ २, २६, २१ नाथ इति पाठे । g) या ४,
१४ पराष्ट द । h) = वल- ।

वसन-केस-कीटो (ट-उ) पहल-
 -तम् बाध १४, २२.
 वसन-दशा (शा-श) न्त- न्तः
 विध २४, ८.
 वसन-म(य >) नी- न्योः लाश्री
 ८, ११, २३.
 वसन-वत्- न्तः शोच ४, १, ९.
 वसन-विरुध्य- न्त्याः नित् १,
 ११ : ९.
 वसना(न-अ) न्त- न्तान् छाठश्री
 १५६
 वसना(न-अ) न्त- न्तम् वीश्री
 १७, ३९ : ४.
 वसना(न-अ) न्त- पावा ६, १, ८१.
 वसान, ना- नः आश्री १४, १३,
 ३; १६, २५, २१; २२, ३, ५;
 काश्रीसे २८ : १७; वीश्री १२,
 ९ : ११^१; १४, ७ : २४^१ × ४;
 वाधुश्री; -ना आश्री २, ४,
 १ : २१^१; माश्री २, ३, १४^१;
 शिष्ट १, २७, ८^१; -नाः
 माश्री २, ७, १^१; कौश्री ३,
 ३; या ७, २४^१; -नाम् वैश्री
 ५, १३ : ९; -नी आश्री ५,
 ४, १०; १३, २२, १; माश्री
 ५, २, २२.
 वसिष्ठा जेश्रीवा ११; विध २८, ४९.
 वसुधुक्^२ - कः वीश्री १४, २० :
 ११; दाश्री १५, २, ८; काश्री;
 -कम्, -काय दाश्री १५, ३, ८;
 काश्री ५, ११, ८; वैशाश्री २६,
 १४.
 वाश्री- न्त्या कौश्री १०७, २१.
 वाश्री- पाठ ४, १५१; वाश्री २, ४,

३१; -सम् काश्री ७, ८, १४^१;
 वीश्री ६, ८ : १; १४ : २७;
 जेश्रीका १५३; आश्री; आश्री
 ३, ५, २ : ६^१; या ४, २४^१;
 -सम् माश्री १, २, ५, १२;
 माश्री १, ११, ६; विध ६, १३;
 २३, ६; -खाणाम् वीश्री ४, २,
 ५; वैश्री ३, १५, १०; -नीश्री
 आश्री ३, ८, १; काश्री ८, १२,
 ८; लाश्री; -खात् पावा ३,
 १, २१; -खे आश्री १२, ११,
 १०^१; हिश्री ८, ३, ३१; कैश्रीका
 १०; अश्री ७, ५, १; विध ८७,
 १; -खेण अश्री ५, ५, ४; २३,
 ६, ५ × ४; अश्री १, १; १३, ५;
 विध २३, ४४; -खेभ्यः विध
 ३, २४; -खेषु अश्री ६४, ७,
 १०; उ०^२, २३, १३; विध
 २९, १०; -खेः काश्री १४, १,
 २०; अश्री ५, २, ३; १९^१, ३, २;
 ६८, ५, २९.
 वस-काश्री (स्य-ज) पनीविन्-
 -वी वैश्री ३, १४, १.
 वस-क्षय^३ - खे अश्री १७, ५.
 वस-गन्ध-युष्-धूप-वीश्री-माश्री-
 -न्यैः वीश्री २, ११, २३.
 वस-गन्ध-युष्-माश्री- न्यैः
 वीश्री २, १, १५.
 वस-गन्ध(न्ध-आ) भरण्, सु-
 श्रादि- न्नीनि वैश्री ३, २ : ९.
 वस-उ(ग >) शा- -शा अश्री ९,
 २, २.
 वस-उ(ग >) (ल-अ) वस- -पाति
 वैश्री ३, २१ : १५, १६.

वस-तोय- -येन वैश्री ५, ६ :
 १९.
 वस-दशा^४ - -शानाम् शोच ४,
 ९, ८; शोच ४, ३, १४.
 वस-दान- -नम् शोच ४४६.
 वस-निर्णयक^५ - -कः वैश्री ३,
 १५, ९.
 वस-निष्पीड-तोय- -येन अश्री
 ४२, २, ९.
 वस-निष्पीडन- -येन अश्री
 २, ६.
 वस-पूत- -नाम् विध ९६, १५;
 वैश्री ३, ७, ९.
 वस-मथि^६ - -धिम वा ४,
 २४^१.
 वस-माता(स-अ) म्भस-
 -म्भसाम् अश्री ६४, ३, ८.
 वस-माधिन्- -धिमम् वा ४,
 २४.
 वस-माल्यो (स्य-उ) पातन्-उत्त-
 -त्राणि वैश्री ३, २, ५.
 वस-मुश^७ - -नाम् आश्री ६, १;
 शोच ३, १, १२; शोच ३, १, १८;
 अश्री १, ५०, १; अश्री १३, ३;
 विध ८६, १७; -नानि वीश्री १,
 २, ७; ६१.
 वस-मुश- -लेन शोच ६७.
 वस-मुश- -म्भम् शोच ५,
 २, ८; आश्री ३, ३, २ : १८;
 अश्री १६, १, १६.
 वस-विदल-उत्त-धर्मन्- -मंशाम्
 शुषप ८७ : १२.
 वस-विदल-उत्त-विदल-
 धर्मन्^८ - -मंशाम् शुष २८.

८ 'ना. इति पाठः १ मनि. गोध. (इ. वै १, ८, १२, १) । १) 'नाः इति पाठः १ मनि. गोधः (तु. शी. वै, ११, ५) । २) वैश्री १६. ३) = वा. वैशा ६, १, १ । शो १८, २, ५७ कौश्री ८०, १७ तु आतः इति पाठे. ४) उर. < √सि [उषे] । ५) उर. = प्रान्त- । ६) नाश्री. ७) उर. उर. धर्मन् < निम् √किन् । ८) उर. = शुषप- । ९) उर. । उर. - इत्यतः परः विदल-धर्मन्-उत्तः (इ. शुषप ८७ : १२ मनुः ५, ११९ विध २३, १४) ।

वस्त्र-सायना(न-ञ)गिन्-ज्वलन्^१-
-ने अच्चा १७, १.
वस्त्र-सांपदी^२- -दी कौम् २१,
१२.
वस्त्र-हिरण्य-धान्य-प्रदान्-
-न्यसु गौष १३, २१.
वस्त्रा(स्त्र-आ)दि- -दिता वैष्ट
३, २ : ११; २३ : १३.
वस्त्रा(स्त्र-२आ)घ- -घैः वैष्ट ४,
३ : १; १० : २०.
वस्त्रा(स्त्र-ञ)न्त- -न्तम् माथी
२, १, ४, १८; चाष्ट ६, ५, ५.
वस्त्रा(स्त्र-ञ)न्तर- -रम् अप १,
५०, १.
वस्त्रा(स्त्र-आ)स्तरण-कर्मन्-
-र्मं कैथ्रीका १६२.
वस्त्रा(स्त्र-अ)पहारफ- -फः विघ
४५, १३.
वस्त्रा(स्त्र-अ)पहारिन्- -री शंघ
३७६; ३७७ : ६.
वस्त्रा(स्त्र-आ)मरण- -मैः वैष्ट
४, १२ : ५.
वस्त्रा(स्त्र-अ)शंकागा(र-आ)दि-
-दिगिः अघ ४, २, ४.
वस्त्रा(स्त्र-अ)रकुण्डल- -नम्
वैष्ट २, १३ : ४.
वस्त्रा(वस्त्र-अ)वहृत्^३- -त्तम्
काथी २५, ८, ३^४.
√वस्त्रि वा ३, १, २१.
वस्त्रो(स्त्र-उ)त्तरीय-पुष्पा(ष्व-
२आ)घ- -घैः वैथी १, ४ : १४.

वस्त्रो(स्त्र-उ)त्तरीय(>)पा^५-
-याम् विघ ९२, ८.
वस्त्रो(स्त्र-उ)त्तरीया (व-आ)दि-
-दि वैष्ट ५, १३ : १७.
वस्त्रो (स्त्र-उ)त्तरीया (य-आ)
भरण- -गानि वैघ ३, १०, ५.
वस्त्रो(स्त्र-उ)त्तरीया (य-आ)
भरण-पाथा(य-आ)चमन-पुष्प-
गन्ध-भूप-दीपा(प-अ)क्षणा(त-
आ)चमन- -मैः वैघ ३, १, ५.
वस्त्रो(स्त्र-उ)पानह-माल्यो (त्य-
उ)पवीत- -त्तानि विघ ७१, ४७.
वस्त्रवस्^६- -स्वः^६ आपथी १६, ११,
१२; द्विथी ११, ४, १२.
-वाप^७->वासो(स-उ)दक- -कम्
वैष्ट ७, ६ : ५; गौषि २, ४, ७; १३.
वासस्^८- पाठ ४, २१८; -सः
काथी २, ७, ६^९; ९, ४, १७;
काथी ४, ५, २^{१०}xx; काथीः माष्ट
२, ३० : १५^{११}xx; -ससः
काथी ६, १०, ६; काथी ७, ३,
२२; आपथी १, १०, १; २, ५,
४xx; वीथी; -ससस्^{१२} काथीसं
२९ : १८; -ससा काथी ८,
१४, १०; काथी ८, ६, ३५;
आपथी; आश्रित १, १, २ :
२१^{१३}; ५, १ : २१^{१४}; वीष्ट २,
५, १२^{१५}; माष्ट १, ५, १४^{१६};
१३ : ४^{१७}; द्विष्ट १, ४, २^{१८};
गोष्ट २, १, १८^{१९}; -ससाम्
काथी १५, ३, १३; वीथी २१,

७ : १६; कैथ्रीका १८४; वैष्ट;
-ससि आपथी १४, १२, ४;
१९, १, १; ५, ७; २०, ११;
२१, ५, ५; द्विथी; -ससी काथी
२, ५, १०^{२०}; काथी ५, ५, ३२;
१५, ८, २३; आपथी ८, ८,
१७; १३, २०, १४; वीथी;
-सांसि काथी १५, ७, ३३;
२२, ४, २२; आपथी १, १०,
१^{२१}; १८, ३, ४; १६, ९; वीथी
२, ७ : २४; १० : ३^{२२};
५, १५ : २१xx; माथी;
-सोभिः आपथी १८, १, १२;
वीथी २१, २ : १५; वैथी १७,
८ : १^{२३}; द्विथी १३, १, १; काष्ट
५७, २; अप ११, १, १५; वीघ.
वास-उरो-वाहु- -हुषु काथी
९, ४, ३५.
वासः-पल्लव^{२४}- -नम् वीघ २,
५, ८.
वासः-प्रकृति^{२५}- -सिः मौस्
१०, ६, ७८.
वासः-प्रबद्ध- -द्धम् काथी १०,
२, ४.
वासः-उत्रो(प्र-उ)पानह- -नहः
पाष्ट २, ६, १२.
वासः-पात- -तम् काथी २०, १,
२४.
वासो-द^{२६}- -दः विघ ९२, १२.
वासो-दक्षि(ण>)जा^{२७}- -जाः
वीथी १३, १ : १७, २४, २९, १.

a) द्रत. > वस. > वस. । b) वस. उप. सं-वद्-(प्रयोजनार्थे अणि) > सांपद्-> स्त्री. यनि. ।

c) उप. = चण्ड- । d) कृतम् इति वीसं. । e) वत. । f) वैष २, २८, ६. । g) = छाव.

हैमा २, ४, ५, ५। ऋ ४, १३, ४ तु वस्म इति पाठे. । h) = वस्त्र- । i) छाव. वी ६, १२४, ३ वाससः

इति पाठे. । j) पाठाः! चमसम् इति प्रकरणः शोधः । k) पाठे. वैष १ कुच्यया वी २, ११, २ डि. ६. ।

l) वसां इति पाठः ? यनि. शोधः (वृ. वीथी ५, १५ : २१) । m) व इति पाठः ? यनि. शोधः (वृ. आपथी.

प्रच.) । n) पृ १५४७ तस्य. पल्लवम् इति नेष्टम् । o) कृतिः इति जीवं. प्रयावं. । p) उप.

<√वा (दाने) । q) वत. उप. = २दक्षिणा- ।

वासो-दशा- -शायाम् वीथी
१२, १ : ५.

वासो-दान- -नम् द्विथी ५, ४,
८८.

वासो(सम्-अ)पिवास- -सुसोः
शुदे ४, ३०.

वासो(सम्-अ)पामन- -नम्
वाथी १२, ५, १६.

वासो-भार- -नाम् वीथी ११,
१ : ८; ६ : २७; १२, ७ : ३८.

वासो-यज्ञोपवीत- -ने शंख
२१२; ३४४.

वासो-युग- -नाम् अग्राम ६, २;
अप ७०, ३, ४; विष ९०, ४;
-गेन विष ८७, ४, ६.

वासोयुग(ग-आ)च्छादि-
(ग) ११- -नाम् विष ९०, १३.

वासो-वत् वीथि १, ६, १२.

वासो-वास- -असम् मीम् १०,
३, ३४.

वासो-वास- -गः ऋषा २, ४११.

वासो-दिरण्य- -पथे वाथी १०,
२, ८.

वासो-दिरण्य-रथन- -नसे
वाथी ३, ४, ४, १.

२वास- -स्वम् शुभ ४, १२३१.

√वस् (पन्थे) > ३वास- > वास-
प्रवृत्ति- -अपः अप ३३, १, ७.

वास(ग-आ)दि- -दीम् अप
३३, ५, ८.

√वस् (दीप्ति) > १वस्- >

१वसिष्ठ- -ठः वीथी ३, ११ :
१६; १४, १७ : १; माथी १, ९,
१०; वाथी १, २, ३, २९; द्विथी

२२, १, १; भाए २, १३ : १०;
-ष्टाः वीथी ३, ११ : १५; वाथी

१, २, ३, २९.

वसोवस्- -न्यः काथी १०,
३, २२; आपथी १३, २१, २; १;
वीथी ८, ११ : २; १४, ५ : १६;

माथी २, ५, ४, ३७; द्विथी २,
५, ४२; कैए; -यसः लाथी ५,
३, ५१; -यांस. आपथी २३,

८, ११; द्विथी १८, १, २५;
२९; ३, १; ४; १७, ४, १८;

-यांसम् तेषा १६, १३१; -यान्
शाथी ४, १२, ११; आपथी

२, १७, ५; ४, १५, ५१;
५, ३, ११×४; वीथी.

१वसोवसी- -सि आपथी
४, १०, ४; माथी १, ४, २, १;

वाथी; -सी ऋषा १८, १;
गोए १, ६, ३३.

१वस्यस्- -स्यः थाथी ३, ७,
६; आपथी ३, २०, १०; वीथी

३, ३० : २०, माथी; माथी
२, ५, ४, १७; -स्वसः वीथी

५, १६ : १५; द्वाथी १३,
२, १३; गोए २, ६, १०.

वस्यसी- -सीऽसी

भातिष्ठ ३, ६, ४; १७; २०; वीथि
१, १३ : १६; १८.

१वस्य-इष्टि- -इथे वीथी
११, ११, १७; १८, १८, ५.

१वस्यथि- -इथे^१ द्वाथी १५,
३, ८; लाथी ५, ११, ८; -इ^१

वीथी १४, २० : १२; द्वाथी १५,
३, ८; लाथी; -इम् द्वाथी १५,

३, ८; लाथी ५, ११, ८; वेताथी
२६, १४; -इवै^१ वेताथी २६, १४

वस्यो-भूय- -याय अप ४६,
४, १; ६, ५.

वस्योभूयाषा(ग-अ)न्त-
-न्तान् अप ८, १०.

√वस् वाचा. दिवा. पर. स्तम्भे, तुरा.
उम. स्नेहच्छेदापहरणेषु

२वस्- (> ४वास-पा.) पाप ५, ४, ३८

वसन्- वसति, वी-प्रम् √वस्(ववा). प्र

वसन्- प्रम्. √वस्(आच्छादने) द.

वसन्त- पाठ ३, १२८; पाग २, ४,
२१; ४, २, ६३; -न्तः काथी

४, ७, ५; १वसन्त ५, ३, १८;
८, ४, १३; १४, २८, ४; वीथी;

-१वन्तम् आपथी ४, ९, ७; वीथी
३, १८ : ७; माथी ४, १३,
२; माथी १, ४, १, २६; वाथी

१, १, ३, १; वैथी ६, ७ : ३;
द्विथी ६, ३, २; -न्तस्य वीथी

१८, ५२ : ५; माथी १, ४, १,
२७; वाथी १, १, ३, ११;
-न्ता माथी ५, १, ५, ७२;

वाधुथी ४, ४० : ३; वाथी १, ५,
३, १७; -१न्तान् वा १४, ३४;

a) उप. = १२७, ग-। b) उप. < गवा(१/४)स (क्षेपणे)। c) उप. = मान-विशेष-।
d) उप. = युग्म-। e) गमाहारे इत्। (द्र. गारभार्य्य केतलानन्द्य; हेतु. व्यस्तः पाठः इति जीस. प्रयास.)।
f) देव १ द.। g) गमाहारे इत्. उप. = दिरण्य-वृत्ति- (द्र. सप्र. वाथी २०, ६, १० आपथी २०, १७, ८ प्रम्.)।
h) = वृषण्य-। i) पथि. वै १ वृषीपः ते ३, १, ९, २ इ. द.। j) पथि. वै १ वृषीपः ते १, ३, २९ इ. द.।
k) यत्. वृषीपः <> वृषसः (मा ३, ५८ वा) इति पथि.। l) पथि. वै १ वृषसः ऋ ६, ६१, १४ इ. द.।
m) यत्. 'इथे <> इथे इति पथि.। n) पथि. वै १ वृषसः इ. द.। o) विष. (पर्याय-मन्त्र-). वस.।
p) √वस् शं वीथि (द्र. पामाषा.)। q) इ २१६९ इ. द.। r) = [वसन्त-मन्त्र-परि-] प्रम्-विशेष-।

श्राद्ध ८, ४०; -न्ताय श्राद्धौ २०, १४, ५; २०, ६१; वृषाधी ३, ५, १, २१; २२; हिथ्री १४, ४, ४६१; -न्ते वाधौ २, १, ११; वाधौ २, १, १; २६, १, २७; काधौ ७, १, ५; आपधौ; -न्तेऽन्तेऽवाधौ १०, २, ५; वैधौ १२, ३: १; हिथ्री ७, १, ४; -न्तेन काधौ १९, ७, २, १; शुभ २, ४५८. वासन्त^१-पा ४, ३, ४६; -न्ताः श्राद्धौ २०, २३, १०; ११; वीथौ १५, ३८: ११; हिथ्री १४, ५, १७; -न्ताय हिथ्री १४, २, ३५; -न्तौ श्रम १५, ४^१.
 वृषासन्तौ-न्ती वीथौ १०, ३५: ५; १४, २२: १०.
 वासन्तक- पा ४, ३, ४६.
 वासन्तिक, का^१- पा ४, २, ६३; ३, २०; -कः प्राधौ ४, १२, १; -का^७ वाधुधौ ४, २९: ५;
 -कानि वीथ २, १०, २; -काय शाधौ ९, २७, १; -कैः वीथ २, १०: २; -कौ वीथौ २, १६: १७; वैधौ.
 वासन्तिकी- की नाशि २, ८, २.
 वसन्त-ग्रीष्म^८- पाग २, २, ३१.
 वसन्त-वर्षामण्डल-तुल्य-विष्व-
 -वमः अण २४, ६, ३.
 वसन्त-शरद्- -दौ श्रे १, ११५.
 वसन्ता(न्त-या)दि- -दि काधौ २०, ८, ३०; -दितु वैधौ १७, ७: २; वैताधौ ११, ४; -दौ वीथ २, १०, २.
 विसर्पति^१ श्राद्धौ १०, २८, ३.

वसन्तान-, वसन्त- १ वसु- द.
 वस्ता(वसा.)^१- पाग ३, ३, १०४; -सया वाधौ ३, २, ७, २९; -सा अण ४८, १०२१^०; शुभ १, ४०३; विष २२, ८१; २६, ९१; -सानाम् मीम् ११, ४, ३४; -साभिः वाधौ ३, १, १, ९; -साम् काधौ ६, ८, ११; वीथौ ४, ९: २४१; वाधौ १, ६, ७, १५; ३, २, ८, १४; वैधौ १०, १६: १; पाण ३, ८, ६; गोथ.
 वसा-ग्रह- -रुम् काधौ १२, ४, २४; -हाय काधौ १९, ४, १२.
 वसा(सा-का)तिशेष- -येण द्राधौ १३, ४, ९; लाधौ ५, ४, १६.
 वसा-पाय- -त्राय वीथौ १८, ४०: १६; -त्रैः वीथौ १८, ४०: २४; २५.
 वससा-पावर्^२- -वान् वीथौ ४, ९: २४.
 वसा-भेदो(द-उ)द्रव- -वम् शंघ २४२.
 वसा-रथिर-मांस-भेदो(द-क)स्थि-
 मज्जा-शुका(क-भा)मक- -कम् विष ९६, ४४.
 वसा-लोहित-मांस- -सानाम् अण ७०, ५, ५.
 वसा-शेष- -येण काधौ ६, ८, २०.
 वसा-शोणित-गन्ध^१- -त्व- -त्वम् अण ६४, ६, १.
 वसा-संदेह- -हाय रुधौ ८, ८, १२.
 वसा-हय(न>)नी^८- -या वैधौ १०, २०: १५; -न्याम् वैधौ १०, १८: १२; १६: ८.
 वसा-होम- -माः वीथौ १५, ३६:

१७; १६, ११: ३; वाधुधौ ४, ६५^१; ३; मीम् ११, २, २३; -मम् श्राद्धौ ७, २५, १; ४: १०; वीथौ ४, ८: ३०; ९: १२; १७; २३^३xx; माधौ; -माः वीथौ १०, ५९: ६; ११, १३: ८; १५, १८: २०; १७, २: ३; माधौ ५, २, १२, ३; -माय काधौ ५, १९, १६; -मे वाधौ ३, ६, ८; वीथौ २३, ६: १३; -मी वीथौ १२, १६: २०; १८: २३.
 वसाहोम-शेष- -येण माधौ १, ८, ५, २९; माय २, ४, १०.
 वसाहोम-हय(न>)नी^८- -नी वाधौ १, ६, २, ११; -नीम् श्राद्धौ ७, ८, ३; ७; माधौ ७, ६, ६; हिथ्री ४, २, २७; -न्या हिथ्री ४, ५, २७; -न्याम् काधौ ६, ८, ८; श्राद्धौ ७, २३, ११; २५, १; वीथौ २५, ३२: १४; १६; २०; माधौ ७, १८, १०; माधौ.
 वसाहोमो(म-उ)शेष- -येण वैधौ १०, १९: १६.
 वसाहोमो(म-उ)कैक- -कैण वीथौ ४, ९: २६; माधौ ७, २०, ७; हिथ्री ४, ५, २३; ५, १, ३९.
 वसै(सा-ए)क्रेष- -शम् काधौ ६, ८, १६.
 वैश्यासति^३- -विषु या १२, २१.
 वासाय- -वयः या १२, २१.
 वयसाति^१- (> वासायक- पा.) पाग ४, ३, ५३.
 वसन्त- ✓वत् (वाञ्छादने) द.

a) वैष १ द. । b) विर. (मधु-कृत-) । c) दु. पागम. । d) वाठः । सप्र. वैधौ १२, २०: ४ उपसर्पति इति । e) = वात्- । f) द्रव. > दत्त. । g) = पात्र-विशेष- । h) रु. दु. = रादि- इति, = जनपद- इति, [पक्षे] दु. P.W. प्रय. = उपत्- इति । i) गणो पाठाजनङ्गीकाराद् वासाय- ह्यन्त्यः इति पागम. ।

रवसान- (> वासानक- वा) पाप
 ४,२,५३
 घसा-पात्र- प्रभु वसा- द.
 घसित्वा √वस् (आच्छादने) द
 ?वसिनी^०- न्या वाश्री ३,२,१,२५
 रवसिष्ठ- √वस् (वीथी) द
 रवसिष्ठ^०- ००४ पाठु ६,५५, पा २,
 ४,६५, या ५, १४^०, -४ शाश्री
 १४, २५, १, ६६, १xx, वीथी
 १०, २५ ६^०xx, निम्, -४म्
 शाप ६,१,१, वै १,४ - ११^०,
 अण ४३, ३, २३, अण ११६
 ४०, वीथ २ ५, २०^०, -४स्य
 वीथी १८ ५२ ९, अण २०,
 ३२, ३३, अण १, ५४४, २,
 ३१२, चाण १६-१७. ६, ३८
 २^०xx, वा ६, ३०, २, २६,
 -४^० वीथी ४४ ६, अण २,
 ३, ५३, १, १०, वृदे ४, १८, ११९,
 ५, १५८, पाणि २, ४, -०४
 वा ११, २०^०, -४वा^० वीथी ३
 ४५ १, -४नाम्^० आश्री ३,
 २, ६, १२, १५, १, वीथी
 १०, ११ ८, पाण ४०, २,
 पाण ४४^० २०, पाण ४, १८,
 -४ाय आसि १, २, २ १६,
 २४, वीथ ३, १, ३, १^०माथ ३,
 १० १, ८, दिग् २, १९, ३,
 ६, पाण ३०, ११, -४े वृदे २
 १३०, ३, १२८, -४ेन कण २,
 ८, ७, वृदे ५ १६३
 पासिष्ठ^०- ००४ आश्री १२ १५,
 १, २^०, आश्री २४, १०, ४ ७,

वीथी, -४ आश्री १४, ८,
 १, वीथी २, ३ ५, वाथी ३,
 १, ६, १, हिथी १०, ८, १, अण
 ३, ३ ८, पाथ, -४म् आश्री
 ८, ८, ४, वाथी ११, १३, ७,
 १६, ११, १३, वीथी १४, २०
 ५, वाथी २, ३, ९, लाथी ३,
 ६, २९, अण ३, ३ ८, १०,
 ६ ३, ११ १८^०, गोथ ३,
 १३, १७, पाण ४, १४, ५, निम्
 २, १ २०, ३, १० १, ८,
 १० ५, १२ ७, वाथ, -४स्य
 निम् ८ १० ६, कण ३, ९,
 १६^०, चाण ४० ५ ७, -४
 आश्री २४, १०, ४, वीथी ३
 ४५ ८^०, हिथी २१, ३, १४,
 वैथ ४, ७, ९, वृदे ५ १५२,
 -४नाम् वैथ ४, ६, १, मीथ ६
 ६, २४, -४े निम् ८, १० २६
 वासिष्ठ गौहव^०- वे निम्
 ५, १ १५
 वासिष्ठ मार्गवा(व वा)द्वि-
 सा(स मा)वास्व- न्या वैथी
 १२, १ १८
 वासिष्ठी(य >)वा^०-
 -थामि वीथी २३, ७ २७
 वासिष्ठ-करयप- -पयो द्वि २, १९,
 ४, अण २८८, -वैथ अण ४,
 २००
 वासिष्ठ-करयप-व्याश्रय- वा अण
 ३ १०
 वासिष्ठ-कारयप- पयो अ द्वि १,
 २, १ १६, -वै वैथ ४ ७, ९

वासिष्ठ-ग्राम-भूयण- -ग वैथी-राष्ट
 वासिष्ठ द्वेषि(व >)वा^०- प्य ऋष
 २, ३, ५३, वृदे ४, ११७
 वासिष्ठ-निर्वर्त्य- र्वे मीथ ६, ६, १
 वासिष्ठ-निहव^०- -वम् वाथी ३, ९,
 १२
 वासिष्ठ-पुत्र- -प्राणाम् वाथ ३०
 २४, ३८ ४, ४० ८
 वासिष्ठ-पुरोहि(त >)वा^०- -ज
 वीथी १४, २० ४
 वासिष्ठ-भरद्वाज- जी अण ३, ६२
 वासिष्ठ-यज्ञ- -ज्ञ शाश्री ३, ११, १,
 वापथी ३, १७, १२, वीथी १७,
 ५४ ३, वैताथी ४३, २६,
 -४स्य शाश्री ३, ८, २
 वासिष्ठ-राजन्य- -न्यानाम् वापथी
 २१, २, ४, २४, ११, १५, हिथी
 १६, १, २५, २१, १, १८
 वासिष्ठ-वचन-श्री(क >)वा^०- -वाम्
 वाथ २, ५०
 वासिष्ठ-वृत् आश्री २४, १०, ४ ७,
 वीथी ४ ४४, ८xx, हिथी २१,
 ३, १४^०, वैथ ४, ६, १-४
 वासिष्ठ-शक^०- फो वाथी २६, ५, १३
 वासिष्ठ-शाप- -वाथ वृदे ७, ५९
 वासिष्ठ-शुनक- -का^० निम् ४, ८
 ५ -कानाम्^० शाश्री १, ७, ३,
 वाथी १९, ६, ८, वापथी २१, ३,
 ६, २४, ११ १६, हिथी १६, १, २६,
 २१, २, २७, -वैथ ऋष ३, १३
 वासिष्ठ-शुनका(क अ)वि-वश्रय
 रापन्य- न्येभ्य आश्री १, ५,
 २१.

a) वृ पापन । b) पाठ ?। सप्त आश्री १८, १०, १४ वायातापे इति । c) = प्रापि-विशेष ।
 नेन १४ । d) वा^० इति पाठ ? यदि शोध । e) पठु < वासिष्ठ । f) विष, नाप (साम्, लाश्री
 प्रभु.), व्यप । अण-वापथे प्र । g) 'वि' इति पाठ ? यदि शोध । h) वाश्री द्वस । वप < वृदु-
 (व्यप) । i) = वस् । तेन रद्रीपत् एम् प्र । j) वि (अन्-). k) = साम विशेष । l) वत ।

वसिष्ठ-सर्प^०- वसु आधौ १०, २,
 २५
 वसिष्ठस्य-जनित्र^०- ये लाधौ ९,
 १२, ८, निवृ ८, १० १
 वसिष्ठस्य निवृ^०- न आधौ १४,
 २०, १, -वसु आधौ १०, १, ११,
 -ये हिधौ १५, ५, २१
 वसिष्ठस्य-मित्र^०- वसु निवृ ४, ३:
 ३०^३, ५, ७ २६.
 वसिष्ठस्य वीराज^०- वसु छुवृ २,
 १० २३^३, ११ १२^३, ३, ६
 १, २, ९, -जे जैश्रीष उ^३
 वसिष्ठस्य-नाक^०- जैश्री २३
 १०, जैश्रीका ५२, दाधौ २, २,
 ३६, १०, १, ११, लाधौ १, ६,
 ३२
 वसिष्ठस्य ससर्प^०- वं आधौ २२,
 २०, १, हिधौ १७, ७, ११.
 वसिष्ठा(प्र अ)गस्य- सस्ययो वृदे
 ५, १६४.
 वसिष्ठे(प्र उ)क- क क १, १,
 १८, -काम वप्र १, ४, १२
 देवसिष्ठ-> वसिष्ठागनि- पा)
 पाग ४, २, ८०
 वसीयस्- वसु (वीश्री) द
 वसु वाधुधौ ३, ७५ ५
 वसु(वषा)^०- पाठ १, १०, पाग २,
 ४, ३१, ५, १, ३९, २, ६१, ३,
 ११०^०, ४, ३८^३, -सव शोधौ
 ४, २१, ८^३, १२, १९, २^३,
 १४, ३३, ८, ६९, २^३, १६,

२७, २x, काधौ, बीधौ २६
 ९ ६, ७^३x, वाधुधौ
 ३, ४३ ६, ४, २६^३ १x, x,
 क ३ ६, १२, अ २२, ७, ३,
 ४८, ११२, शेष १४१ वृदे ३,
 ११०, ८, १२५, निध १, ५,
 ५, ६, या १२, ४१^३, उनिवृ
 ८ २१, पि १, १५, ३, ३,
 वेजो ३४^३, -^०सवः शाधौ
 १, १५, ५, ८, ८, ९, १६,
 ३, १२, १७, ८, ९, काधौ
 -^०सरे आधौ १४, २५, ११,
 १२, १३, ९, बीधौ १२, ५, ७,
 हिधौ १५, ६, २९, २३, २, ४२,
 -^०सु शोधौ १०, १५, ६, १२,
 १६, १, काधौ ५, १३, ३,
 आधौ, बीधौ २५ १० १४^३,
 सुवाधुधौ ४, ६४^३ ११, १२,
 कौवृ १०७, २^३, अ ४८, ९०,
 सुवे ५, ६३, १३९, ६, ६६,
 ८५ निध २, १०, या ३,
 ११^३, ९, ४२^३, -सु^०सु शेषा
 २, १८^३, -^०सु आधौ ५, ५,
 ८, १२^३x, या १४, ३१, वेजो
 १०^३, -सुगा या ५ ११^३,
 -^०सुभि आधौ २, ११, १२^३,
 शोधौ ३, ६, २^३, आधौ ४, १२,
 ३^३, १०, ७, ५, १, १६, ४, ३, १२
 २०, ४, बीधौ, -^०सुम्य आधौ
 ६, ११, १६, काधौ ३, ६, १,
 आधौ ३, ५, ७, ४, २, २, १२,

५, १२, १४, काधौ, -^०सु
 आधौ ४, १२, ७, ५, १६, १,
 आधौ १०, ८, २०, १४, ५७, ४,
 माध २, १३, ६, सुव ११६
 ५५^३, ६२^३, शेष २, १०,
 १२२, -सुधु शोधौ १४, ३३,
 ८, आधौ ६, ९, १^३, -^०सु
 शोधौ ६, ६, ६, शेष २, १,
 १५८, -^०सु आधौ ४, १२ ७,
 १०, २, १, शोधौ १०, ४, ३,
 आधौ ४, १, ८, १२, ३, १२, १७,
 ४, २२, १५, १६, बीधौ, -सुगान्
 आधौ ५ ६, ९^३, शोधौ १, ६, २,
 काधौ, -^०सुभि आधौ ३, १०, ६,
 ९, ७, शोधौ ३, ५, १०, आधौ
 ६, २८, ११x, बीधौ, आधौ
 २, ११, ४^३, ३०, -^०सो आधौ
 ५, १४, ४, ६, २, ९, ४, १०, ७, ११,
 २४, शोधौ; या १, ४०, ४^३,
 -^०सो काधौ ४, २, १५, २१,
 आधौ, आधौ २, ११, २७,
 पाठ ३, ४, ४^३, या ४, ४, १४, ०^३
 -^०सु आधौ ३, ८, १, ४, १३,
 ७, ६, १, २, १३, १४^३x,
 आधौ २२, ७, ११, शोधौ १५,
 ४ ३, पाठ
^०वसु^०- ^०सु काधौ ७, ६,
 १४, आधौ १०, २२, ११, बीधौ
 १, ११ ३४, ६, १३ १, माधौ,
 माध १, २, १२, पाठ ९, ९^३,
 या ४८, ७४^३, निध १, ७^३,

a) = अहीन-निधेय । b) = साम-निधेय । c) पाठ १ व, सु इति सरस्वती शेष । d) = धन-
 अष्टतया, देवता, रश्मि प्रवृ । वै १६ । e) = आयुष्योचितव्ययशेष । f) २वसु- इति पाठा । g) धनिष्ठाग-
 देवता- । h) पाठ १ वसु (वसु) इति सरस्वती इति । i) = सवा मा २, २२ प्रवृ माध १, २, ३१ शेष ३, ७,
 ५, १० । शी ७, १०३, १ सु वसुना इति, अ ४, ३४, ११ मद्य इति च पाठे । j) द्वादशमूर्त्तयाम् अन्यतम- ।
 k) = दशविधदेवाऽन्यतम- । l) पाठे वै १ वसुनि ति ३, ३, ११, ३ इति द । m) वा १ । n) सवा शी ३, २, ०
 मयो इति पाठे । o) पाठे वै १ वसुनि ति ३, ३, ३९ इति द । p) वै १६ । q) वसु इति पाठ ३
 वनि घोष २ (सु माध १, ३, १२) । r) = तपि- ।

-स्यै आपथी १२, १७, १३,
 माथी २, १, ६, ८, वैथी
 १वासव-पा ५ २, ६१, ३, ११७,
 ४, ३८, -व अप ५२, १, १६०, या
 १२, ४१^७, -वस्य वेजयो २९०,
 -नृवा आथी ४, ७, ४, शाथी ५,
 १०, ३३, आपथी १५, १२, २,
 वीथी, अप ५१, ५ ६९^८, -वे
 विघ २०, २३^७, ७८, २१^०
 वासवी^८ - वी ऋम १७, ८
 वसवान^८ - ०न ऋम ८, ४३.
 वसवर्ष^८ - पा ४, ४, १४०, ५, १, ३९,
 -वस्य कीम् ५, २१, पावा ४, ४,
 १४०, ५, ४, ३०, -नृग्या.
 आपथी १२, २६, ४, वीथी १३,
 ३९, १, माथी ५, २, ६, ८, १७,
 द्विथी २२, ६, ७, आमिथ १, २,
 १ २२, २, ५, ११ १८, अथाव
 ६, २१६, -थै पावा ४, ४, १४०,
 ५, ४, ३०
 वसु-कन^८ - वी ऋम २, १०, ६५,
 वृदे ३, ५५
 वसु वाम- मा या ६, ५
 वसु-वृ^८ - वृत् ऋम २, १०, २०,
 अथ २०, ७३.
 वसु वृ^८ - ऋ ऋम २, ९, ९७,
 १०, २७, अथ २०, ७६, -कस्य
 वृदे ७, ३०
 वासुवृ^८ - वृ ऋम २, १०, ३०,
 ६५, -कस्य वीथी १७, ९, ५
 वसु-वृ^८ - वृथ या ६, २३^१

वसु दानम्--वन् शुभ्रा २, २०^८,
 -वा^८ आपथी १०, १८, ७, वीथी
 ६, ७, २२, भाथी १०, १२, २,
 वैथी १२, १४ ३
 वसु-वेव^८ -> वासुदेव- ०व विघ
 ९८, ८, -वम् शंघ ११६, ६६,
 विघ १, ६०, ४२, १, ६५, १,
 ९०, ३, १७, १६, २७, १०,
 -वाय विघ ६७, २^३, -वे अप
 ७१, १६, ५, १७, ४
 वासुदेवक- पा ४, ३, ९८
 वासुदेवा (ग-अ)म-तत् ()
 विघ ९०, २०
 वसु देवता-> ०व, स्या- त्य.
 आथी ५, १७, -स्या अथ २, ४, ६
 वसु-व^८ -> वा^८ - या अप २४, ५,
 २, ५५, ५, २, विघ १, १९, ३३,
 ९८, ४, ९९ १, ५, -वाम् अथ
 २४, ५, ५, ६, २, विघ ९९, ७,
 -०वे विघ ९६, ९७
 वसुधा(वा ज)विघ- न्य अप
 ६८ ४, ६.
 वसु धा- > ०वा-न्व- र शीव
 ४ ४५^{१०}
 वसु धान^८ - माय या ९, ४२, ४३
 वसुधानी- वी कौर १३७,
 २८^१, -वो या ९, ४२
 वसुधामन्- मानि माशि १३, ९,
 वसु धित- पा ७, ४, ४५
 वसु धिति^८ - नित्म् ऋम ८, २९,
 -नृथी शीथी ८, १८, १, या ९,

४२^{११}
 वसु धेय^८ - न्य द्विथी २, ४, १०,
 -नृवस्य वाथी ६, ८, ७^१, २
 ८, १४^२, १६, १२^३, ३, ६, १३^४,
 शाथी १, १३, १, २, ४x४, माथी
 वसु-वीथि- पाग ६, २, ४२
 वसु वीथ^८ - ०व द्विथी ३, ६, १५^५
 वसु-व^८ (>)वा^८ - ०रा विघ २८,
 १०२, -राम् अथ २, १, २, ४,
 ६, ६, १४, १, ४, १७, १, ५x५,
 विघ, -०रे विघ २३, ४६
 वसु-वति- नति आथी ८, १, १८,
 वीथी १३, ७ ८^१, -तिम् वीथी
 १३, ७ ८^१, -नृथी शुभ्रा २,
 २०
 वसुवली^८ - नृथी या ११, ४५^१
 वसु-वृ (वृ>) वृ^८ - ०वा वसु
 मती-नृद दान-कल्- ०वम्
 कम् २, ४, १९
 वसु-वृद- ०वम् विघ १, ५९
 वसु मव- नथयो ऋम ९, १^१
 वसु-वृद- पाग ५, २, ६१, -नृमत्
 काथी १०, ७, १३ आपथी ४,
 १३, ८, भाथी, -नृमते आथी ५,
 १, १५, शाथी ६, ७, १०, वाथी
 ९, ४, ७^१, आपथी १५, १०,
 ९, २१, २४, ५६, वीथी, द्विथी
 १६ ८, २३६, -नृमत् आपथी
 २, १५, १३, कौर ३, ३, ६,
 शाथ, -नृमत् वाथी ५, ३,
 १०, शाथी ६, ९, १२, माथी,

a) = [वर्षा-देवता] इन्द्र । b) = अग्नि, इन्द्र । c) = [वसुदेवस्य-] धनिधान्यम् । d) = [वासाव-देवस्य] प्रद ।
 e) साऽऽपेक्षणीय प्र । f) वेप १ द । g) वसव इति पाठ २ यनि शोष (तु ते २, ४, ८, १) । h) = शक्ति
 निशेप- । i) १९तमस्य वृत्तस्य निर्देश सुदृष्टय (तु MW.) । j) "वृत् इति पाठ २ यनि शोष (तु. ऋम) ।
 k) वेप २, ३४ द । l) विघ, वप । लेनदृष्टायर्थे प्र । m) स्या ते ४, २, ३, ४ वसुदावा इति पामे । n) पामे
 वेप १, १५५० । d) = पृथिवी । p) = स्या वी ५ २७, ६ । मा २७ १५ प्रम् तु वसुधातम इति पामे । q)
 वप भावापथे प्र । r) "थी इति स पाठ १ यनि. शोष (तु मा २८, १५ प्रम् MW च) । s) पामे वेप १ वसुधीतम्
 इ ६, । t) स्या ते ४, २, १, ४ वसुवति इति पामे । u) स्या वि ५, ७, ४, १० वसुमत् इति पामे ।

-मान् आधौ २, ११, १११;
 काधौ १०, ७, १३१; आपधौ;
 या ६, ३१.
 वसुमती^२- नी क्य ३,
 ३, ६; विष १, ४८; ९८, १;
 -तीम् काधौ ३, १, १११;
 आपधौ ११, ५, ११; वीधौ;
 विष १, २९.
 वासुमत्- पा ५, २, ६१.
 वसुमद्-वसु^२- ण्यस्य वीधौ
 ७, १५: ९; माधौ २, ४, १, ४४;
 हिधौ ८, २, १९; -णत् आपधौ
 १२, २४, ८; हिधौ ८, २, २१;
 -णत् वीधौ २६, १५: १०;
 १८; २८.
 वसु-भनस^१- ना: आपधौ १६,
 १६, ४^०; कौण वे, ४, ५^०; ऋष
 २, १०, १७६.
 वसु-रवि^२- चि: ऋष ८, १०, (४)१
 वसु-नोचि^२- पाठ २, १११;
 -चिप: ऋष २, ८, ३४.
 वसु-वत्^२- वन्तम् गभ^१ १९,
 १७; १८.
 वसु-वत्^२- वने आधौ १, ८, ७^१;
 २, ८, १४^१; १६, १२^१; ३, ६,
 १३^१; शोधौ १, १३, १; २;
 ४४४; वीधौ.
 वसु-वनन- नाथ या ९, ४१; ४३.
 वसु-वनि^२- नि: वैधौ १८, १४:
 १२^०; हिधौ २, ४, १०; ३, ७,

८^०; काण २७, ३^०; हिण १, २९,
 १^०.
 वसु-वर्ग^२- गौ: ऋष २, १६.
 वसु-विद्^२- नित् काधौ ५, १२,
 १०; आपधौ ६, १७, १२; वीधौ
 ३, १६: २२; २३४४; हिधौ;
 -विद्म् काधौ १२, १४, १;
 आपधौ २, १०, ४; वीधौ १,
 १४: १०; माधौ २, १०, ५;
 माधौ; कौसू १०८, २^१; -विदे
 कौसू ७८, १०.
 वसु-विन्द-तम, मा- म: आधौ
 २, ५, १२; शोधौ २, १५, ५;
 कौसू ८९, १३^१; -मम् आधौ
 २, ५, १२; शोधौ २, १५, २;
 ऋष ७, १९; -मा: आपधौ
 १३, २१, ३^०.
 वसु-विन्द^२- न्वाय काण ७,
 २०; गौव २६, १२.
 वसु-वीर्य- र्यस्य माण २, ११, १३.
 वसु-व्यस^२- वा: वीधौ ३, ८:
 ३१.
 वसु-श्रुत^१- त: ऋष २, ५, ३;
 शुभ १, १६७.
 वसु-वे (<वे)ण^२- न्नाम् विष १,
 ५९^०.
 वसु-संपत्ति^२- त्पे वैताधौ १२, २.
 व (<वु)सू ग- ऋषम् ऋष ९,
 २३१.
 वसुनां (वावसोम-)^२ शोधौ १४,

७०, १; ७२, १.
 वसु^२ > वसुसु- न्वाः ऋष
 २, ५, २९^०; शुभ २, २७५^०;
 ३, ६५^०; साध १, ८६^०; २,
 ६८^०; वा ७, १९; ६, ५१^०;
 ऋषा ७, ४०; २१, ८; -सु: वा
 ६, ३१^०;
 ऋषा ९, १६; तैत्रा
 ३, ७.
 वसो-धारा^१- रावौधौ १७, २५:
 १४; २६: १२; २६, २७: ६;
 -राम् आधौ ७, ८, ३०; काधौ
 १८, ५, १; आपधौ १७, १७, ८;
 २२, १७, १०^०; वीधौ; क्य १,
 १, १५^०; -राया: आपधौ १९,
 १३, ४; वीधौ १९, ५: ४; हिधौ
 २३, ३, ४०; -रावै माधौ ६, २,
 ५, २४.
 वसोर्पाता(रा-अ)भित्वादि(वु >)
 नी- नी शुभ २, ३२१.
 वसु(सु-अ)न्त- न्तम् जैण १,
 १: १८; दाण १, २, ८; गोण ७,
 ५, ४.
 वसु(सु-अ)दि-देव- न्वाद् ऋष
 १, ३०.
 वसु(सु-अ)दि-नाना-सन्गोक्त-
 देवता: > देव- न्वाद् ऋष
 १, ९.
 वसु^२- पाठ ७, १, १५४; -सु: ऋष
 २, ९, ८०; साध १, ५६२.
 वासुस्यनि- पा ७, १, १५४.

a) विप., नाप. । b) वैष १ द. । c) = [उपचारत] मन्त्र- (ते ३, २, ५, २) । d) विप.,
 व्यप. (ऋष.) । वस. । e) पाणे. वैष १, २६१२ b द. । f) पाणे. वैष १ वसुमन्त्रम् वै ७, १७, १ टि. द. ।
 g) वस. वृष. = वसुन्- । h) उप. < वृदि (लाभे) । i) पाणे. वैष १ वसुमन्त्रम् वै २०, ४८, ५ टि. द. ।
 j) पाणे. वैष १, २३१६ c द. । k) उपा. ऋ ८, ३, १५ मे १, ३, ३९ की १, २५१; २, ७१२ जे १, २६, १;
 ३, ५८, ९ तो २०, १०, १, ५१, १ तो १५, १०, ३ आधौ ७, ४, २ शोधौ ७, २३, ५; १२, ४, २२ माधौ २, ५, ४, १८
 वैताधौ २२, ११; २७, १२; ३३, २४ मुद्रमन्त्रमाः इति पाठे. । l) व्यप. । m) = विष्णुः । n) वसुमन्त्रम्
 इति जीव. । o) उप. भाष. । p) = कतु-विद्येय- । q) वसु. < वासुस्य- । r) = भावृति-विशेष- ।
 s) = धर्म-विशेष- । t) विर. > नाप. (मन्त्र-) । वस. ।

वसुक- प्रम् \checkmark वस् (आच्छादने) द्र
 वसुकर्ण- प्रम्, वस्-वू-, वस्यु-
 १वसु- द्र
 चस्रोत्तमीभया तौ वाधौ २, २, ५,
 १२
 वसोर्ध धारा- १वसु- द्र
 \checkmark वस्क् पाषा भ्वा पर गतौ
 \checkmark वस्तु पाषा जुग धात्म श्रद्धेन
 व (<> स्व^०) स्ति^० - पाठ ४, १६०,
 -स्ति वप्र १, ७, ९, विष ९६
 ११, -स्तिम् कौट २५ १५,
 -स्तौ गोष्ट २, ७, १४, द्राष्ट २,
 २, २९
 वास्तैय- पाठ, ३, ५९, ५, ३,
 १०१
 वस्ति शीर्ष^० - दौ विष ९६, ९२
 स्वस्तु- \checkmark वस् (पषा) द्र
 स्वस्तु^० - पाठमो २, १, ६२, पाग ५,
 २, १००^०, -स्त्वाम् वैष्ट ३,
 १६ ४
 वस्तु स- पा ५२, १००
 वस्तु सस्क- क्म वाशु ७, १९
 वस्तु- \checkmark वस् (आच्छादने) द्र
 च्वस्तोर्द^० आपधौ ९, ७, ३ ४, वीधौ
 २८, १२^० ६ ७, भाधौ ९, ९,
 १०, १४, वीधौ २, २, १२, अण
 ४८ १११, निष १, ९, या ३,
 १५४, ८, ९४
 वस्त्य- \checkmark वस् (वधा) द्र
 वस्त्य- प्रम् \checkmark वस् (आच्छादने) द्र
 वस्त्य^० - पाठ ३, ६, -चस्ता आधौ
 २, १८, १३, वीधौ ५, १०
 २३, -स्ते पाया ५, १, १९

वस्ति- पा ४, ५, १३, ५, १, ५१
 वस्यहृष्टि-, वस्तष्टि-, वस्त्य-
 \checkmark वस् (वीधौ) द्र
 वस्त्यरिति- स्व- द्र
 वस्त्यस्- \checkmark वस् (आच्छादने) द्र
 वस्वी- १वसु- द्र
 \checkmark वह (वधा)^१ भ्वा. उम प्रापणे,
 वहते वाग् १, २२^०, विष १,
 २०, श्रघ्ना २, ४४^०, निष २,
 १४^०, वहति वाधुधौ ४, ८४
 ५-७, ८^१, ९, ४४, आश्रित्य,
 वहत वीधौ ११, ६ ७^१,
 १७, १. २०^०, २५, ५
 ११, १२, माधौ, वहति
 आधौ १२ ९, १४, च्विआधौ
 ५, ६, ३, ११, ७, ६, १४, १७,
 १, भाधौ, च्विहसे आधौ ५,
 १८, ५, आधौ ८, ३, १०, वहति
 वीधौ ६, १० १७^१, अण २८,
 ३, ७, या ७, २३, श्रघ्ना ८,
 ४६^०, वहामि तु ६, ५, ७, ४,
 वहते वैताधौ ३८, १^०, वहति
 वैताधौ ६, १^०, वहत्व वीधौ
 १०, ४ १८^०, च्विहति आपधौ
 ४, ७, २, काधौ २५, १, ११^०,
 माधौ, च्विहत्त वीधौ १३, ७
 १८, १४ २४ ३५, ४४, माधौ,
 वहन्वाम् आपम २, २०,
 २०^०, च्विहन्तु आधौ ५
 १९ ३ गांधौ ११, ७, ४, वीधौ,
 च्विहदस्व > स्वा गांधौ ४, १४,
 ३६, वीधु ५, ३, २६, श्रघ्ना ७,
 ५२, च्विह आधौ ३, १०, ८,

१२, २२, गांधौ २, १७, ८,
 आपधौ, हिधौ ३, ८, १२^{१०} xx,
 च्विहद्व्यम् काष्ट ६३, १३, जैष्ट
 २, १ २८, च्विहत्त आपधौ १२,
 ३, २, हिधौ ८, १, ४१, द्राधौ
 ३ २, ६, ताधौ १, १०, ५, वदे
 ६, २१९, विहानि^१ माधौ १,
 ७, २, १८^०, अयहत् तु ८, ५,
 अयह सु ९ २, वदेष्ट अण ६७,
 ६, ३, ७१, १४, २, वदेरन् हिष
 २, ४, ३६, ३७, वह्ये तु धाधौ
 ८, ३, १२, आश्रित्य ३ ५, ३
 १०, वीधि, वह्येष्टम् तु २८, ३,
 ३०, ५, वहेम वदे ६, २०
 च्विहति आपधौ १५ १४, ४
 २९, १८, ७, वीधौ ९, १४
 ११, भाधौ, या ८, १९^०,
 च्विह्वम्^२ वीधौ ४, ६ ४५
 तैसा ९, २२, उद्यत्त वाध १,
 ३३
 च्विहिये^३ आधौ १, ११, १३,
 गांधौ ३, १९, ३, आपधौ ३, ११,
 २^०, वीधौ १, २१ १७, १९
 हिधौ २, ६, ० आपम, वक्ष्यति
 वदे ६, २२, वहिष्यति कौष्ट १,
 ७, १^१, वक्ष्यन्ति गांध १, १७,
 १^१, वक्ष्यामि वीधौ ३, २३
 ८^१, वक्षति या ६ ४^०, च्विहत्त
 माधौ ५ १, ३, १४, या ९,
 ४२, ४३, च्विहत्त आपधौ १,
 १०, १४, वीधौ २ ११ १२
 माधौ १, १०, १ हिधौ
 वाहयेत् अण १, ९ ९, वाहयेत्

a) विष पाठ । b) वैष १ द्र । c) पक्ष । d) = पदार्थ । e) तु पागम ।

f) या ३, १३ या ६ १, १५ पावा १, ३ १५ ४, ५२ पराष्टु द । g) धा गती इति । लघुशास्त्रीय पाठ ।
 h) सपा वहामि <> कृदिये (मै १, ४, ३ च) इति पाठे । i) वहत इति पाठ^१ वह, न इति द्विपद शीघ
 (तु लंटा २ ५, ८, ८) । j) पाठ^२ वहाम् इति शीघ (तु मै १, १०, ९) । k) पाठे वैष १, २ ५ १२ १ द ।
 l) परस्पर पाठे ।

कौट ३, १, ७^६.
 वनीवाङ्मन्ते शीश्री १४, ४, ११.
 उडा काशीतं ३३: ३; माण्ड १, १८:
 ७.
 उडामान, पा- नम् दाश्री १४, १,
 १२; १३; लाश्री ५, ५, ९; १३;
 -ना वीष्ट ४, १, ९; १०; माण्ड
 १, १२, ४^१; अण्ड ५८^३, ३, ३;
 -नात् वाधुश्री ४, ५१: १;
 -नाम् आपमं १, ७, ८^१; वीष्ट ४,
 २, १५^१; माण्ड १, १८: ४;
 -नायै वाम १३, ६०.
 ऊडा, स्व^७, डा- नः क्रुम् ३, १२: ७;
 विष्ट १५, १५; -डायाः वैष्ट ३,
 १: १४; -डायाम् कौसु ७७, ४;
 शंष ३६६; -डासु वैश्री १४, २:
 ७; -डेयु काशीसं २७: ८;
 -दहयोः शशी ११, १२, ७.
 ऊडा-भा(यां >)यै- पाण्ड २, २,
 ३७.
 ऊड्वा लाश्री ८, १, १३.
 ऊडिवस्- शिवांसम् माश्री १, २, ५,
 १६^१; -हुपः आपश्री २१, ८,
 १०.
 १वह, डा^१- न्हा: अण्ड ४८, ७६^१;
 -पूहानाम् वैष्ट ५, ४: ३८; ५ १;
 -हे पा ६, ३, १२१; -हो अण्ड
 १, ४६, ४.
 पूव(व^१)हिष्ठ- ठः दंवि २, ३;
 -ष्टेभिः आश्री २, १३, ७;
 आपश्री १६, ११, १२; वैश्री १८,

१०: ७; हिश्री ११, ४, १२.
 २वह^१- पा ३, ३, ११९; पाण्ड ३, ४,
 ७४^१; ६, १, ११९; -हम् आपश्री
 २१, ८, १०; या ३, ९; -डाव
 आपश्री २०, १५, १०^{१६}; -हे
 आपश्री २०, २, १०; हिश्री १४,
 १, २४.
 वहं-लिह- पा ३, २, ३२.
 वह-वल्ह^१- पाण्ड ४, ७४.
 वह-ल, ला- पाठभो २, ३, ९८^१;
 -डाये^१ वीश्री २४, ३१: ६.
 पूवह्व- हतः^१ आपमं १, ८, २^१;
 कौट ३, ४, ३^१; काण्ड २७, ३;
 वीष्ट १, ५, ७^१; -दहयः वा ३,
 ९; -हम् आपश्री २१, २०, १;
 काशीसं २७ १२; वीश्री; -हन्तः
 आश्री २, ५, १७^२; आपश्री ६,
 २७, ५^१; १२, १२, १३;
 हिश्री ६, ७, ८^१; ८, ३, ४२;
 आण्ड २, ९, ५^१; शीष्ट ३, ५, ३^१;
 हिष्ट १, २९, २^१; वृते ५, ७०.
 वहन्ती- न्ती सु १०,
 ४; माण्ड १, १४, ६^१; २, ११,
 १७^१; वाण्ड १५, १७^१; हिष्ट
 १, २२, १४; -न्तीः शीश्री ४,
 ५, २^१; आपश्री १, १०, ४^१;
 ११, २०, ६; वीश्री; -न्तीनाम्
 आपश्री ८, ७, २१; ११, २०, ५;
 १२, ५, ५; काठश्री १०८, १०९.
 माश्री २, २, ५, १४; ३, २,
 १४^१; वैश्री १६, २४: ६; हिश्री

७, ८, ४८; -न्तीसु वैश्री १४,
 १८: ६; १५, ६: ४; -न्यः
 वीश्री १२, ८: ४; वैश्री १४,
 १८: २; -न्योः कौसु ३२, १४.
 वहह्व-सु- पाण्ड २, १, १७.
 वहति- (> शी- पा.) पाठ ४,
 ६०; पाण्ड ४, १, ४५.
 वहतु^१- पाठ १, ७७; -पूतुना
 आपमं १, ५, ३; पाण्ड १, ७, ३;
 वीष्ट; -पूतुम् आपश्री १७, १८,
 १; आपमं १, ६, ४; ७, ८; १०;
 काण्ड २६, ४; ६^१; वीष्ट; माण्ड १,
 १३, ६^१; या १२, ८; ११^१.
 वहत- नम् अण्ड ४८, १२५^१; वृते
 १, ११९; या ७, ८; १२, ११;
 -नात् या ६, २; -ने वैष्ट ७,
 ५: ९.
 वहन्त- पाठ ३, १२८.
 वहय^१- न्यः वीश्री २, ११: १९;
 १५, २५: ४^१; ६^१.
 वहिष्ठ- पाठ ४, १७३.
 वहिनु^१- हिनम् आपश्री ५, २०, ८;
 वीश्री १२, १: २; ४; ५; ४:
 २६; आश्री १, ४, ३, ३६.
 वहिनी- भी आपश्री १८, ९, ६;
 -नीम् वीश्री १२, ३: १९.
 वहिनी-दधि- धि काश्री
 १५, १, २७.
 वह^१- पाठ ४, ११३; या ३, १,
 १०२; -हानाम् आश्री ९, ९,
 १४.

d) सपा. काण्ड ३, १, १४ बर्हियेसुः इति पाठे. | b) काश्री. पाठः। c) विप., नाव. (पञ्च; नदी-)।
 वरीरि अच् प्र. | d) हिश्री. देवि. पाठः। e) वैष १ द्र. | f) ४ १०९२० द्र. | g) सप्र. वीश्री १५, २५:
 ४; ६ वहसः इति पाठे. | h) ४ १०६७ b द्र. | i) = [पुण-नहा-] गो- | j) <✓वह। k) सपा. बहवः
 <> वहन्तः <> वहन्ती इति पाठे. | l) सस्य. उडामाणा. > णाम् (द्वि) इति शेषः (द्र. काण्ड २७, १
 आपमं [मु. XVII]). | m) वृहन्तीः इति पाठः? यनि. शेषः (द्र. सपा. मा २, ३४)। n) 'वृती' इति पाठः?
 यनि. शेषः। o) 'वाम्' इति पाठः? यनि. शेषः (द्र. शी १४, २, १२)। p) 'वम्' इति पाठः? यनि. शेषः
 (द्र. सपा. प्र १०, ८५, २०)। q) = २वह-।

वाह्- पावा ३, २, १७१
 वाह- वाह पाठ, १, ६१, ६, ४, १३२
 १वाह- पाग ७, ४, १२^०, -पूह
 वीस् ३५, २१, अथ ६ १०२,
 -हयो माय ३, १३ १३, -पूहा
 आमिष्ट ३, ८, २ ६, वीपि २,
 १५ १८, हिपि १५ ६, वृदे ५
 ७, -पूहा आपथी १६, १८,
 ६, वैथी १८, १५ १७, हिथी
 ११, ६, २८, -है अप ७०^०, २,
 १, -है आपथ ५, २२, ६, ७
 १वाहिक- पा ७, ४, १२
 १वाहिक-ठ आथी ७, १५,
 २, शा.नी ११, ६, २, निष ७, २,
 वा ५ १^०, -ठग आथी १०
 ६, ७, शाथी ३, १५, १०, ५, ५,
 ६x४, वैथी
 वाहक- का वैशि ३२६
 वाहन- पाग ७, ४, १२^०, -नम्
 वीथी १५ ८ ३^० ४, वाधुथी
 ३, ७५ १० १२, वैथ २, १५
 ११, अथ, -नम्स पाठ ३, १४,
 १५^०, -नाथ वीथी १५, ८ ९,
 -नानाम् अथ १७, २, १०, निष
 ६३, १८, -नामि वाय ५७, १,
 ४, अथ १७ २, १, १२, ७०^०,
 ११, ७, वृदे -ने अप ६७, १०,
 ६, ७१, १९, ७, -नै विप ६३
 १३
 वाहन-कोश-नाश- -श अथ ३,
 ३, ५
 वाहन-वोध- -धानान् शय २५२

वाहन संख्य^०- -य अथ ३, ३, २
 वाहना(न-अ)पचम- -यम् अथ
 ७०^०, ८, ३
 वाहना(न-अ)थे- -थीय वृदे ३,
 १४७
 वाहनिक- पा ७ ४, १२
 वाहयिवा आमिष्ट ३, ४, १ १०,
 १२, वैष ३, ८, ४
 १वाहर- -व निष ७, १, या ७,
 १६, -हसा^० आथी ७, ८, १, ८,
 ११, ४, शाथी १०, ९, १७
 वाहि- ही छुग्रा ७, ५८^०.
 वाहि(व>)नी- -नीय अथ ६८,
 २, १, २, -नीय वैय २५ ४, ६,
 -वै वीथी २७ ३१ ६^०
 १वाह- छे पावा ७, ३, १२०
 १वोठवे आपथी २, ४, १७, वीथी
 ३, १६ २५, १३, ४३ १९,
 २७, ७ ५ माथी
 वोठ(व>)व्या- -व्या नाथि २ ७,
 ११
 वोठम् वैथी २, ११ ४
 वोठ्, अथ- वा सु ८, २, शय
 २२६, १वृदे ३, ५०, ७५ या
 ३, ४, २, २, १२ २२, -ठार मा
 ८ ३, १०, ३, ११, १६, -ठारम्
 शाथी ८, १८, ११, -ठारै अथ
 १३, ३
 वाहिय- पावा ७, ३, १२०
 वोठ्-तम- -म या ५ १
 १-२यह- √वह् द
 ३यह^० (>वाहायन- पा) पाग ७,

१, ११०
 धवह-(>२वाह-) २रह- टि द
 वहत्- प्रय √वह् द
 वहीनर->वैहीनरि^०- पावा ७, ३, १
 वह्कि- पाठ ७, ५, १, -पूहय. आमिष्ट
 १, ५, २, ४६, वैय १, १८
 ६^०, वा ८, ३^०, -ह्वि १आथी
 ७ ४, ८, ५, २०, शाथी, कय १,
 ७, ११, अथ २१, ७, ३, ५ २२
 ८, २, २९ १, ४, ७८, १३^०,
 ६४, २, २, वाथ २७, २, निष
 १, १४^०, वा ३, ४^०, १७,
 १४, २९, याशि २, १५४,
 -ह्विना शय ६१, -ह्विमि
 वीथी १८, १२ १^०, -ह्विम्
 आथी ७, १३, ७, वैय ५ ६
 २०, अथ २१ ७, ४, २२, ५, ५,
 शय १०३, ११६ ६७^०, ७३९
 ७४१, अथ, वा ३, ६^०,
 -पूहो आमिष्ट ३, ५, ३ ११,
 वीपि १ ३ ९ -ह्वी वीथी ७,
 ५ ३^०, -पूहो आपथी ७,
 १६, ५, ६, ३, ४, माथी, -ह्व
 अथ ५८, १, ३, -ह्वी विप ५९,
 १७, ७४, १
 वह्कि-गृह- -हे विष ६८ ४७
 वह्कि लस- -सेन शय १००
 १वह्कि-तम- -म आपम १, ४
 १४, आमिष्ट १, ५, ४ ९,
 अथ ७, १, -मय वीथी १, ४
 ३०, ५ ११, माथी १, २, १,
 २५, वाथी १, २, ४, २१

a) वैय १ द । b) इ पावा । वाहन- इति भाष्ये प्रयु । c) नाथ (रथ-, हसयादि- प्रयु) । d) उप
 <स/क्षि (समे) । e) वाया धौ ६ ३५ २ अुदत्त इति पाठे । f) = नदी । g) = गो । h) शाथी, उं,
 वाचित् च वा पाठ । i) व्याप । j) यनि पठे <विहीनर इति । k) नाथ (आमि प्रयु) । वैय १ द । विशेष
 टि द । l) = अम्परम् । उवा मा १८, ४३ प्रयु मुष्टय इति पाठे । m) = कट- । n) = पथमहाभूताऽन्वतम ।
 o) = नरा तै ६, ३, ६, १ । सा [६, ७] प्रयु माथ ३ ७, १, १० इ वृद्धिमान् इति, पाठ २६ ७ यद्वीय इति, मे १, १,
 १५ प्रयु मुष्टय इति च पाठे ।

वद्धि-नुण्ड^१- वद्धे विध ४३, ४०
 वद्धि-नेज-प्र(भा>)म- अम् मा
 १४, ३०^०
 वद्धि-प्रव्याप्त- नम् विध २३,
 ४५
 वद्धि-वर्ण- -र्णान् अय २४, १, ३
 वहा- √वद् द्र
 वहाका- पाग ४, १, १५४.
 वाहाकापनि- वा ४, १, १५४,
 -नि. वीथीय ४५ ३
 वाहास्क^२- (>वाहास्क- |>पका-
 वन्-| वा) पाग ४, १, १०४,
 १००
 वा^३ आथी १, १, २३ ५, ९, ३, १०
 १०^४, आथी
 वा प्रकरण- -ये पावा १, १, ३६, ८,
 ४, १०
 वा प्रसह- -ह पावा ४, २, ४४
 वा योग- -गाम् अथा १, १, २२
 वा-वचन- -नम् पावा १, ३,
 २९, २, १, १८, ३, ६९××,
 -नाम् पावा १, ३, ५९, २,
 १, २४, ४, ६२, ३, १, १४, ४, १,
 ८३××, -ने पावा १, ४, ५३, ३,
 १, २^३, ४, १, ८२, ६, ३, ८२
 वाचन(न आ)नर्थक्य- -क्यम्
 पावा २, १, १, ३, १, ५××
 वाचन(न आ)नर्थ- -नम् पावा
 ६, ३, ६
 वा विधान- -नम् पावा ३, १, ३१
 वा(वा-अ)सक्य-निवृत्त(ति-अ)
 र्थ- -नम् पावा ३, २, ६९
 √वा^४ पाषा अदा पर गतिगचनयो,

वाधि वेथी २३, १०५, आसिष्ट
 २, ५, १० ६, १११९, अय
 ७०^३, ३, ३, आवय, पानि अय
 ५३, १, ४, ६४, २, ४, ३, १०,
 ऋवातु आथी १४, २९, १, कौस्त
 ९, २, ४, अय, ऋवातु आसिष्ट ३,
 ४, २ १६, वीथि ३, २ ३, वीह,
 वावाव आथी ९, १०, ५,
 वीथी ९, १८ २६, द्विथी १५,
 ३, १५, आथय १, १२ ५ द्विथ
 १, ४, ५
 वावर्^५- वाव ३, ८६, पाग ४, २,
 ४९, पागवा ५, २, ९५, -णंत्
 आथी १९, २५, १९, द्विथी
 २२, ६, २, कौस्त ११७, ४^६, -व
 आथी ४, १२, २, आथी १२,
 १८, १, १६, १३, ४^६, ऋवाथी
 १४, ३, ६, २०, ५, १४, २३, ४,
 ८, आथी, काय २४, १११^६××
 -तम् आथी ३, ३, ११, आथी
 ५ १५, ३^६, आथी १६, ३, २,
 ऋवाथी १०, ८, ९, १७ २०,
 १३, वीथी, -णंत्स्य आथी ७
 २५, ५, १६, २५, ९, वीथी ४
 ९, १८××, माथी, -ता ऋवाथी
 २, १५, १ ४, १२, २, आथी
 १७, ४, २७^६, आथी, वाथी
 ३, १, २, १^६, माय १, १३, ४^६,
 वाय १५, १^६, -णंत् आथी
 १, १, ४, आथी २५ ६,
 ८, आथी ५ १३, ४××,
 वीथी, -णंत्^६ वेकि २२६^६,
 -णंत्नाम् आथी २, ५, ८,

वीथी ३, १६ १०, २४,
 २७ ५, आथी, -णंत्वा काथी
 २, ३, १६, आथी १, १७,
 ९, ६, ८, १०, १५ १०, ८,
 वीथी, -णंत् आथी १०, ८,
 १२, १३, वाथी १६, ४, २,
 आथी ११, १८, ८^६, वीथी,
 -णंत् आथी ४, १२, २, आथी
 १, १२, १७, माथी १, १, ३,
 २५ द्विथी, -णंत् अय ५९, १,
 ८, ९, ७०^३, ११, ११
 वातकिन्- वा ५, २, १२९
 वात-मुहम्^७- >णितम्- -न्मी
 अय ३७७ ५, विध ४५, २७
 वात-वर्^८- -वै चात्र १७
 १०^६
 ऋवात-वृत्^९- -त् आथी ७, ४,
 ५, माथी ७ ३, १२, द्विथी ४,
 १, ६१, -वात् आथी ३, १३,
 १२, वीथी १३ ४३ २५ माथी
 वात-वृत्ति^{१०}- ति अय २ १०,
 १३६, वृत्ते ८, १२७
 वात ज्ञान- -ये वा ६ २ ८
 वात तिवृ^{११}- तिव्य आथी ३,
 ५ ११
 वात-वेव^{१२}- -व वृत्ते ८, ४९
 ऋवात-नाम्^{१३}- मम् आथी २
 १७, २०-२५, -मानाम् वीथी
 २२, १० २०
 वात नामन्- -मानि काथी
 २६ ५ १७, आथी १५, १०,
 ८, १७, २०, ११××, वीथी
 ऋवात पति>की^{१४}- ली

a) नाय । अस एय अर्थे । b) तु अय विभक्त । वैतु स ञ्च, प्रमुम् इति । c) १७ १७ १६
 सस्य प्रमुम् नेयम् । c) वय । d) निवृत्तापर्ये अय । e) वा १०, १ पराम्पु इ । f) वैप १ इ ।
 g) स्या अ १, ९०, ६ प्रवृत्ता इति पाठे । h) पाठे वैप १ वाताम्पु वै १, ७, ५, २ डि इ । i) विप
 (अथ) । j) ष्वाते इत्येव पूर्वेषु समस्त इव पाठ १ यनि शोधे (हु ०) । k) =रोग विशेष- । l) वाताज्जेव
 इति पाठ १ यनि शोधे (हु वै २, १, १ वावर्त्त इति पाठे) । m) =वापि विशेष । n) वत ।

आपमं २, १२, ८; आमिष्ट २, १,
४: १२; हिष्ट २, ४, १; अम्र २,
१०८.

वात-पित्त-कफ- -केषु अप ६८:
१, ७.

वातपित्तकफा(क-आ)मक-
-का: अप ६८, १, ५.

वात-मृद्धि^१- -तय: अप ६८, १,
४; ४४; ४८.

वात-अकोप- -य: अप ७०^३,
११, ८.

वात-अमी^२- पाठ ४, १; -मिप:
आपथी १७, १८, ११^१.

वातमू-अम- पावा ३, २, २८.
वात-रंहस्^३- -हा: बाथी १४,
१, ७; वैताथी ३६, १८; औत्त;
अप ४८, १०६^१; मिष्ट २, १५^१.

वात-रथा(ना >)न^४- -ना:
अप २, १०, १२६.

वात-वज-इत- -त: अप ७०^३,
१०, २.

वात-वत्- > वातवत्-अपन-
-मे निस् १०, १२: १५.

वात-वा(त् >)व्या- -मपायाम्
अथी १७, ४.

वात-वृषण^५- -वा: दीप ३७७:
११.

वात-वृष्टि^६- -ष्टि: अप ६३, २,
७, ८; -ष्टिम् अप ६३, २, ४.

वात-वैकृ-नोदित- -तम् अप
७०^३, १, ४.

वात-समोरित- -वा: वा ६, १५.
वात-रपते(>)वातरपतेक-
पा.) पाग ५, २, १२.

वात-हृत्- -वम् वीथी २४,
१४: ५.

वात-होम^७- -मात् काथी १८,
६, १; माथी ५, २, ६, ४; वाथी
२, २, ४, २०.

वाता(त-अ)म^८- -मत्^९ वीथी
१८, १७: २०; आपमं २, २१,
१७; पाण्ड ३, १६, ६; काण्ड २६,
२.

वाता(त-अ)वित- -वै: आमिष्ट
२, ५, ८: ११^१.

वाता(त-अ)निर- -रै: आपमं
२, १८, १०; वीथी २, ७, १६;
भाण्ड २, ६: ६; हिष्ट २, ८, २.

वाता(त-आ)म^{१०}- -रमान:
शाथी ८, २१, १.

वाता(त-अ)म-विम(त >)
का- -का: अप ६८, १, ४४.

वाता(त-अ)म(त >)का-
-ना: वा १, ४.

वाता(त-अ)कर्मिम- -दिमभि:
वैथ ३, २, २.

वात(त >)ता-वत्^{११}- -वत् तैषा
३, ५^१.

वाता(त-आ)वर्त^{१२}- -र्ता: अप
६४, १, १०.

वातिक-पावा ५, १, ३८; -करय
अप ७०, १२, १, -कानि अप
६८, १, १७.

वातूल-पावा ४, २, ४२; ५, २,
१७; १२२.

वाते(त-ई)रित- -ता: अप ५२,
४, १.

वाते(त-इ)व^{१३}- -ववे भाण्ड २,
२९: १२; १४; १५××; हिष्ट.
वाते(त-उ)वृष्ट- -वा: वीथ
१, ५, ५०.

वाते(त-उ)पवृष्ट- -त: आपथी
३, १५, ५; माथी ५, १, ७, ३७.

वा(व >)व्या- पा ४, २, ४९.
वायु^{१४}- पाठ १, १; -वायव: आथी
८, १, २; काथी ४, २, ७; आपथी
१, २, २; वीथी; -वायव^{१५} हिष्ट
१, १६, १६; -वाये आथी ३,
१०, ३०; ५, ५, २^१; शाथी १,
४, ५; काथी; -वायु: आथी २,
१२, ५; २०, ३^२; ४, १२, २^१××;
शाथी; -वायुना आथी १, ७, ७^३;
शाथी १, ११, १^४; २, २०, २४;
आपथी; -वायु^{१६} वाथी ३, ८,
१^५; ५, ५, ३; शाथी ६, ३, ६; ७,
१, ३; ९, २२, ११; काथी; -वायु
हिष्ट १, १६, १६; -वाये वाथी
२, २०, ४; ३, ८, १^१; ५, ५, ३;
१०, ५; १८, ५××; शाथी;
-वाये: काथी १२, २, १०^१;
आपथी १५, १८, ७; १७, १, ६^१;
वीथी; -वाये आपथी ५, १६, ४;
शाथी ५, ९, १३; हिष्टो ३, ४,
४२; आमिष्ट १, १, ३: ३०;
३७; भाण्ड.

वाय(व >)वी- -व्या माथी
११, १८, १०; माथी ३, १,
१^२; अथाम ४, १; -वायव
वीथी १८, २०: ६०; आमिष्ट
२, ५, १: २०; ३, ४, ४: २; वीथि
३, ४: ११^३; वैष्ट १, ११: १२×
अप; -वाये भाण्ड ३, १२: २०.

a) मस. 1 b) वैष १ द. 1 c) शिप-नामन्-1 d) मल्ले. वर. 1 e) पाथे. वैष १ तै १, ७, ७, २ टि. द. 1 f) पाथे. वैष १ वातवत्: मे २, १, १ टि. द. 1 g) = सपा. तै २, ४, ७, १ 1 मै २, ४, ७ टि. वातवत् इति, काठ ११, १ वातवत् इति य पाथे. 1 h) = चक्रवर्त-1 i) सपा. मे ३, ९, ४ वायो इति पाथे. 1 j) विर. (सन्-प्रथ), नाप. (दिग्- [वायव्य-धेन-], वाति-) 1

वायवी-शान्ति-सिद्धि-—इये
 अण ७०^१, ४, २.
 वायव्य, श्या(वज्रा.)^३— वा ४, २,
 ३१; —व्यः आश्री ९, २, २३;
 वाश्री ९, २३, २; वाश्री ४, ५, ११;
 २२, ७, १३; २३, ४, १५; आश्री;
 अण ५२, १२, १०; —व्यम् आश्री
 ३, ४, १२; १२, ७, १२; वाश्री
 ३, १८, ३; ९, २३, ६; १७, ८,
 ५; आश्री; अण १८, १, १३^४;
 ४१, ५, ७; —व्यया आश्री १९,
 १७, ८; वीश्री ६, ८; ११; ७,
 १: १२; १७, ४: ४; ६×४;
 माश्री: —व्यस्य आश्री ९, २३,
 ११; आश्री १६, १, ४१; आश्री
 ८, २०, ४; १६, २७, १९;
 वीश्री, —व्या आश्री ८, २०,
 ५; वाश्री १, ७, ५, ३; द्विश्री
 ५, ६, १; अश्री १६, १^५; अश्र;
 —व्या: आश्री २०, १५, ३१^६;
 वीश्री २४, ३८: ३; २५, १३:
 १३; माश्री ६, २, १, ४; ५;
 वाश्री: —व्यात् वीश्री २४, १०:
 ६; ७; २६, २८: २; —व्यात् द्विश्री
 १४, ५, २; अश्री ३, १५०^७;
 —व्यामास् वीश्री १५, ३१:
 २०; —व्यानि आश्री ११, १७,
 १^८; ५^९; १२, १, २^{१०}; ४^{११}; काश्री
 ११६; वीश्री; —व्याम् वाश्री
 २५, १०, २३; आश्री ९, १,
 २३; १९, १७, ७, आश्री ३ २२:
 ७; वीश्री; अश्री १७, ४^{१२};
 —व्यात् वीश्री २६, १०: १९;
 १२: ९; द्विश्री २२, १, १९;
 भाट २, १: ६; —व्याया: वाश्री

१४, ५६, ११; माश्री ३, ५,
 २; —व्यामास् अश्री १८-१९,
 ६; —व्यासु आश्री २२,
 ६, १०; वाश्री २, २, १, ५;
 द्विश्री १७, २, ५७; —व्ये आश्री
 ३, ४, १२; वाश्री ९, २२, ७;
 वाश्री ३, २, ७, ६१; आश्री
 २, ४, ११: १०^{१३}; वैश्री १, १२:
 १२^{१४}; अश्र; —व्येन वीश्री ७,
 १६: २; १०, ६: १; १२, ३:
 १५; १७, २८: ४; २६, १:
 १९; १२: ९; २८: २; ३१: २;
 वैश्री १७, ६: ८; —व्येसु वीश्री
 २९, १: ८^{१५}; माश्री ५, २, ४,
 २५; अण २५, १, ७; ७०^{१६}, १, ५;
 —व्ये: आश्री १२, २, ११^{१७};
 १८, १२, १४^{१८}; २०, २०, ४;
 द्विश्री १३, ५, १०; ८, २१;
 वृदे १, ८७; —व्यौ अश्री ६, ७;
 अश्र २, ८, ४६; वृदे ६, ८०^{१९}.
 वायव्य-विन्दुम्^{२०}— वन्दुमी
 शुभ ३, ८२.
 वायव्य-वाज— अश्री वीश्री १५,
 ३८: ४.
 वायव्य-प्रकार^{२१}— रस् व्याश्री
 १५, १, १४; द्विश्री २४, १, १५;
 —रात् माश्री ४, १, १७; वैश्री
 १३, ३: १२.
 वायव्य-शिरस— रसा वीश्री
 १८, १९: २७; —रसि वीश्री
 २२, २: २३.
 वायव्या(व्य-आ)हृति^{२२}—
 —तिम् भाश्री ११, २, २३.
 वायव्या(व्य-आ)मेय-ज—
 —जौ अण ६४, २, ५.

वायव्या(व्य-आ)दि— दि वैश्री
 १, १५: १.
 वायव्य(व्य-आ)व(दि-अ)
 न्त— न्तम् वैश्री १, ९: १४.
 वायव्यै(व्य-वे)श्रवायव— वै
 वाश्री १२, ७, ३.
 वायव्यै(व्य-वे)श्रवायव—
 मैत्रावरुण— ग्या: अश्र २, १, २.
 वायु-कल्पित— तम् अण ६२, २,
 ७.
 वायु-कर्मन्— मं वा १०, ३.
 वायु-चन्द्र-सूर्य— र्या: गोश्र २,
 ५, ३; कश्र ३, ६, २.
 वायु-जप— व्यम् वैश्री १, ९, १३;
 —वात् वैश्री १, ११, १३.
 वायु-जत— (>व्येव-वा.) पाण
 ४, १, १२३; २, ८०.
 वायु-देवत, ता^{२३}— ता अश्री १७,
 १०; —ते वृदे ८, १०८; —ती
 वृदे ८, १२२.
 वायु-नील— नी: वैश्री १, ५: ४.
 वायु-नेत्र^{२४}— न्य: वीश्री १३५, ८^{२५}.
 वायुपरी— री वैश्री ३, १६: ८.
 वायु-विच्छ^{२६}— च्छ: वाशि २,
 ९१; —च्छात् वाशि २, ९३.
 वायु-पुत्र— ०अ काश्र ४१,
 १७^{२७}; —या: अण ५५, १, ४;
 —वागाम् अण ५५, ६, ३; —वात्
 अण ५५, ६, १.
 वृवायु-पुत— ते वीश्री १, ४:
 १९; २४, २५: ८; माश्री १,
 १७, ८.
 वायु-प्रकल्पित— तम् अण ६२,
 १, ३.
 वायु-भक्ष— क्ष: काश्र ६, २; १;

a) विष, नाप. । b) =ग्रह-विशेष- । c) विष, >नाप. (मन्त्र-) । d) =शान्ति-विशेष- ।
 e) =सोमवाज-विशेष- । f) =वायव्य-कोश- । g) =वायव्यकोश-व्यं श्रम- । h) कश्र. ।
 i) अण. ।

वाघ २१, २१, वीथ ४, २, ८, ५,
६, ८-१०, सुध ६४^३, -क्षा
वीथ ३, ३, ९, १४
वायु-भक्षण- -गम् वीथ ४, ५, ७
वायु-भूत- -ज. विष ५५, १६.
वायु म(त् >)तो- -नी आपथी
१६, ८, ४^१, द्विथी ११, २,
१७^१, १८, -पुंथीम् काथी ४,
१४, १३, वीथी ३, ६-१, ६,
वैताथी, -त्य वैथी १८, ५ १६
वायु-मूर्ति- -ति वैथु ५, १ २६
पुंवायु रक्षित- -तम् आपथी
१७, २१, ८, द्विथी १२ ६, २६
वायु रूप- -यम् अण ६७, ७, ३
वायु लिङ्ग- -जम् वा १, १७
वायु-सरीर-समोरेण- -ग्यात्
सैमा २ २
पुंवायु सम^२- मा पाठ २, १७,
१६.
वायु-स्रवम- -मे अण ७२, ३, २
वायु-सन्धि- -कारो अथ ४, २५
वायु-सूय- -वीं सुदे ५, ८
पुंवायो मा(न >)वी^३- -नी
वीथी १०, ४० ८, द्विथी १२,
१, ४.
वायोर्-अनिबन्ध^४- -न्द् सुध
३, ११ २१, १२ १६
वायोर्-अभिच्छन्द-स्वार^५- -रम्
साथी ७, ३ ११
वायोर् (अधन-) साथी १०,
१३, ९
वाय्व(यु म)मि-दिह-मुप्रा

(य-अन्त >)ता- -न्ता कश्
२, ८, २
वाय्व(यु-अ)मि विप्रा(प्र-आ)दि-
त्या(त्य-अ)प्- -त्याप वीथ ९
१३
वाय्व(यु म)मि सूर्यरश्मि-
-शिमिनि वैथ ३, ४, ९
वाय्व(यु म)तरिक्ष- -क्षे अथ
४, ३९
वाय्वा(यु अ)मक- -क अण
६३, २, ७
वाय्वा(यु-आ)दित्य- -त्याम्याम्
या७, ५, -रथी वा२, २३, १२, ३७
वाय्वी(यु-ई)रित- -तानि धध
१६९
वांशभारिक-, वाशिक- १वंश- द
वाकायन- वरु- द.
वाकिन^६- (>अकायनि- पा) पाण
४, १, १५८
वाकिर् पाण १, ४, ५७
वाकैनाम् साथी ३, ४, ३, १७.
वाकोवाक्य- ✓वच् द
वाक्कल^७- -ञा वीथीप्र १७ ११
वाक्य- प्रसु ✓वच् द
वाक्कपालेय- कपाल- द
वाक्त्^८->अ-सूच्- -पुंसव आपथी
१२, २०, १९, वीथी ७, १२ :
२०, वीथी १५ २५, १३, द्विथी
वाहुर^९ साथी २४, १४, ११
वाग्-अक्षर- प्रसु ✓वच् द
वाग्(र >)रा- पाठ १, ४१
वाग्भूतक^{१०}- -कागम् वैथ ४, ५ २

वाग्भूतक-वत् वैथ ४, ५, २
वाग्भूतया^{११} वीथीप्र ३ ६
वाग्मायन-, वाग्मिद्-प्रसु ✓वच् द
पुंवाघत्^{१२}- -घत साथी ७, ३, १९,
साथी १६, २१, २४, १८ ८, ९,
वैताथी ५ १४, अण ४८, १६,
निच ३, १५, १८, या ११, १६^{१३}
शवाघातक^{१४}- > शवाघातक^{१५}- -क
साथी २ ७, ८
वाहृश् पाथा भ्वा पर वाहृष्वायम्
वाच्^{१६}-, वाचक- ✓वच् द
वाचकवी- कचकु- द
वाचन-, च्वयत्- प्रसु ✓वच् द
वाचाकवि- क्वाकु- द
वाचौष्ठयति^{१७} अण ४८, ४५
श-श्वाच्य-, वाचमान- ✓वच् द
शवाज^{१८}- पाण २, ४, ११, -ञ साथी
३, ८, २७^{१९}, १५, १, ४^{२०}, साथी
१८, ५, १^{२१}, आपथी, वीथी
१८, ५१ १७^{२२}, २६, -जम्
पुंआथी २, ११, ८, १७, १५,
३, २, १०, ८, ३, १, १४,
४, ९, ९, ८, साथी, पुंआथी
२, १३, १^{२३}, ३, ४, ७^{२४}, वीथी
१, १९ ५^{२५}, पुंसाथी २, १२,
१०^{२६}, ३, ४, ८^{२७}, द्विथी २, १,
११^{२८}, पुंवैताथी २ १३^{२९}, ४
१०, -पुंजय साथी ४ १३, ७,
साथी ४, ९, ५^{३०}, १६, १७,
१, साथी, -पुंजा साथी १,
२, ७^{३१}, १०, ५, ४, १३, ७^{३२},
५, ६, २७, ७, ८, ९^{३३}, ९ ५ ५

a) क्षा इति पाठ १ यनि सोध । सप्र वीथ ४, ५, १५ कभोजनम् इति पाठे । b) उप = दुव्य ।
c) वैप १ द । d) = साम विशेष । e) [साम्ने] समाहारे द्वय । f) अण । g) = वपद् । h) पाठ १
वाग्भूतका इति सोध (तु मूचे) । i) = इह भेद- । j) विप (रुम) । विकारे अण् प्र । k) वा चेष्यति
इति सरम्भुं टि । l) यथा. सत् नाप (अथ, अथ- प्रसु) । वैप १ द । m) = एकाह विशेष । सत्य
वेप-> -न्या अथि तपाकर द । n) सत्त्व पाठे वैप १ पाणम् मा २, ७, १४ टि द । o) पाठ १ वाग्भू
इति सोध (तु वैप १, ११७ अ टि) ।

शाथी १, ४, ७^०; १०, ८, १९;
 १२, १०, ३^०; १४, ३, १२;
 आपथी १४, ३०, ५; वीथी^०
 १, १५: २; ३, २७: १९; १०,
 ११: १; माथी १, ५, १, २४^०;
 ६, १, ३, ३; वाथी १, ४, १,
 १०^०; हिथी ३, २, ५३^०; १५,
 ७, २१; २१, १, ९^०; जैथी १४:
 २६; निम् ३, ५: २३; कौम्
 ६८, १०; अग्रम ६, १; -^०जा:
 आथी ८, ८, ८; या ६, १६;
 -^०जा^० वीथी १०, २४: १२;
 आथि ३, ६, १: २५; काथ २६,
 १२; ४५, १२; वीथि; -^०जानाम्
 शाथी ७, १०, १३; वीथी
 १८, १०: ५; -^०जाम् आपथी
 १८, ५, १७; वीथी ११, १२:
 २; वाथी २, २, ४, ८; ३, १,
 २, १७; हिथी १३, २, १०;
 -^०जाथि^० द्राथी ६, २, १८;
 लाथी २, १०, १८; -^०जे
 काथी ४, ४, २२; निथ २, १०^०;
 या ६, १७; १०, ३३^०; शुभ्रा ४,
 ६४; -^०जे-उजे आथी २, १६,
 १४; थाथी ३, ८, २३; काथी
 १२, ७, १८; वीथी ११, ८: १५;
 आपथ १, ६, ३; २, ४, १; वीथि
 २, ५, १४; अथ ४४, ४, १२;
 विथ ७३, ३२; शुभ्र १, ५६९;
 -^०जेन आथी ४, १४, २; शाथी
 १५, १, ३; वीथी १८, ५१: २०,
 ४^०; कुदे ४, १२४^०; -^०जेनि:
 आथी २, ८, ३; वीथी १२, १,
 १३; या ११, २६^०; -^०जिथु

आथी २, २०, ४; आपथी १७,
 ९, १; वीथी ७, ४: ३; ११, ७:
 १२; थाथी ३, १, २, २; वीथी
 १९, ६: ४; द्राथी ८, २, १८;
 लाथी २, १०, १८; वेताथी
 ३२, २; कौम् ५, २; अग्रम
 ७, ५०; ८, २७; १६, २६;
 १८, १८; उम् ३, १; तैत्रा ८,
 ३४; उमिस् ६: ५; -^०जै: अग्रम
 ६, ९; वीथि २६४^०;
^०वाज-गन्ध^० -^०ध्वम् अथ ४८,
 ११५; निथ ४, २; या ५, १५.
 वाज-जिथ^० -^०जिथ^० लाथी ९, ५,
 १४; लुम् ३, १०: ४६; निम्
 ९, ५: ३८; -^०जिथ^० काथी
 ३, १, १३; आपथी २, १३, १;
 ३, ४, ७; वीथी १, १५: ११;
 १९: ५; भाथी; -^०जित: आपथी
 ८, ८, २; वीथी १६, २५: ३;
 द्राथी १५, ४, ६××; लाथी;
 -^०जिता आपथी ८, ८, २;
 १८, ४, १४; वीथी ११, ७:
 २३; ९: ४; वीथी; -^०जितम्
 आपथी २, १३, १; ३, ४, ७;
 वीथी १, १५: १२; १९:
 ६; भाथी; -^०जिता आपथी
 १८, ४, ८; १३; वीथी ११, ७:
 २७; ३०; हिथी १३, १, ४५,
 ४६; -^०जितौ वाथी ३, १, १,
 ४२^०;
^०वाज-जिथ^० -^०वाथि आपथी २,
 १३, १; ३, ४, ७; ८, ८, ९;
 १८, ५, १७; वीथी.
 वाज-दाथ(व >)री^० -^०थै: लाथी

६, ११, ४; निम् ७, ३: ३८.
 वाज-पतन- -^०न्म् वा ५, १५.
^०वाज-पथि- -^०थि: शाथी ७, १०,
 १३; काथी १६, २, २३; आपथी.
 वाज-पथी- -^०थीम् कौम् ११४, २१.
^०वाज-पथम्^० -^०सथम् निथ ४, ९;
 या ५, १५^००^०.
^०वाज-पीथ- -^०रथम् द्राथी १२, ४,
 २२; लाथी ४, १२, १६.
 वाज-पेथ^० -^०पाग २, ४, ३१; तैत्रा
 ११, ३^०; -^०थै: आथी ६, ११, १;
 ९, ९, १८; शाथी १४, ४२, ४;
 १५, १, १; १२; १४××; वाथी;
 आथि १, २, १: १०^०; कौम् ३,
 १, २२^०; शुभ्र १, ५५१^०; -^०थम्
 शाथी १५, ५, १; वीथी १४,
 २०: १०; २२, १३: १; २५,
 ३४: १२; -^०थथ काथी २१,
 २, १०; आपथी १०, २६, ८;
 काठथी १६६; भाथी १०, १७,
 १४; -^०थद् आपथी २४, ४, ९^०
 वीथी १८, १: ५; हिथी ११, १,
 २; -^०थै वाथी १४, ४२, ५; १६,
 १७, १; काथी ६, १, २०;
 आपथी; -^०थेन द्राथी ९, ९, १;
 शाथी १५, ४, १; काथी १५,
 १, १; आपथी १८, १, १; वीथी.
 वाजपेथ-धमस- -^०थद् वाथी
 ३, १, २, ३४.
 वाजपेथ-दक्षिणा^० -^०था: लाथी
 ८, १२, १५.
 वाजपेथ-मन्त्र- -^०न्त्रा: वाथ
 १४: ७.
 वाजपेथ-व्याजिन्- -^०जित: वाथी

a) वृ २१७८ क ० द. 1 b) = सामगानप्रकार-(<वाजेषु [अ ६, ४८, २]) । c) = संवाम- ।
 d) = एनाह-विशेष- । e) वैप १ द. 1 f) = साम-विशेष- । g) सवा. वाज<>वाजि इति
 पथे. । h) = तै १, ७, ७-१२ इति पठतुवाक- । i) = काण्ड-विशेष- । j) = वाजपेथ-मन्त्र- ।
 k) उप. = दक्षिणा- ।

३, ३७: १०; ११; -जिभिः
लाभौ ८, १२, ३; -जी वीथी
१८, ५१: १; २; वाथी ३, १, २,
४५.

वाजपेय-वत् काथी १५, ६, १५;
२२, ५, २४; वैताथी २७, २१.
वाजपेय-संस्था-स्था वाथी ३,
१, १, १०.

वाजपेय-सामन्-भभिः निम्
७, ४: ४८; -सः लाथी २, ५,
२३; -सि जैथी १५, १६; द्राथी
७, १, २४; लाथी ३, १, २३.

वाजपेय-सुरा-सम् वीथी ११,
२: ९; ३: ४.

वाजपेय-सौत्रामणि-पयोः
लाथी ७, १०, १४.

वाजपेया(य-रमा)घ-या:
मैज १११.

वाजपेयिक, का-कः मैथ
२३१; -कम् वीथी २६, २१:
९; -कात् वीथी २२, १४:
१३; -कनाम् वीथी २२, १४:
१२; -कानि काथी १८, ५, ४;
८; -काये वीथी २२, १३: १४.

वाज-प्रसव^० -> श्वीय-भम्
आपथी १७, १९, १; वीथी १०,
५४: १०; हिथी १२, ६, ५; हाथ
२, ३२७; -यानि वाथी १८,
५, ४; वैथी १७, १४: १२; १२,
६: ११९; -यात् आपथी १८,
५, १३.

वाजप्रसवीय-क्षोम-मात्
वैताथी २९, २०.

वाजप्रसव्य^०-व्यम् माथी
५, २, ७, २९; ११, २४; ६, २,
५, २८; वाथी २, २, ४, ८.

वाज-भृत्^०-भृति लाथी ६, १०,
३.

वाज-भर^०-रः ऋज २, १०, ७९.

वाजप^०>वाजपत्-यत् ऋष
२, २, ८; -यन्तः आथी २, २०,
४; ३, ७, १४; आपथी १३, २, १,
३; हिथी; -यन्ता कौम् ५, २.

वाजपयु-युः आपथी १६, ७,
४; काण्ड ४०: ६; वैथी १८,
४: २०; हिथी ११, २, ३;
-युम् ऋषा ७, ५१.

वाज-यानिन्-जी वीथी १८, ५१:
१; २.

वाज-रत्न^०-शाय भाथ ३, १०:
५१.

वाजराजाय आसिष्ट १, २, २: २०१.

वाज-वत्-वत्तः आथी ७, ७, ४;
माथी ५, १०, ३१; काथी १०, ५,
९, ७, १३; आपथी; -वते आथी
५, १, १५; माथी ६, ७, १०; वीथी
२, १०: १२; -वतिः आथी ५,
५, १९; ७, ७, ७, ९, ५, ५; माथी
८, २, ५; १४, ३, १२; -वन्तम्
आथी ५, २, १०; माथी ६, ९,
१३; -यात् काथी १०, ७, १३.
वाजवती-वीथ्याम् आपथी

३, ५, ३; वीथी १, १९: १२४४;
माथी; -पूया आथी ३, १०,
१६; आपथी ३, २०, १०; ९,
१०, १७; वीथी; -व्योः वीथी
३, १९: ५; २०, १४: ६; -व्यी
आपथी ७, १२, २; वाथी १, १,
४, २.

वाजवती-प्रभृति-तीनि
हिथी ७, ५, ४५.

वाज-धवर्त्-वसे आसिष्ट १,
२, २: १९१; वीथ ३, ९, ५;
भाथ ३, १०: ४; हिथ २, १९, ६.
वाजधवत्-साः वीथीप्र२: २.

वाज-सनि->वाजसनेय-पाप
७, ३, १० ६०; -व. वाथी ३,
३९: २; -यम् वाथी ३, ४०:
१; -याः चयू २: ३५; -याव
वीथ ३, ९, ६.

वाजसनेयक^०-यन् वाथी
२५, ८, ४; आपथी १, ४, ७; २, १,
८, ७, १, ५, ४; हिथी; आपथ १,
१७, ३१९; -के वाथ १२, ३१९;
१४, ४६; २३, १३१; हाथ १,
१९; चयू २: ९६.

वाजसनेयि^०-वा ७, ३,
१०६; -यिनः आपथी १, ८, १२;
२३, ४; ५, २२, ८, ६, २७, १४४;
हिथी; -यिनम् वीथ २, ५, २७;
-यिनाम् नाथि १, १, १३; -वी
वाथ ३, १९.

वाजसनेवि-मात्तण-यन्

a) तदप्रस्तावधे ठम् प्र. (वा ७, ३, ६८)। b) = पशु-। c) वैर १ द्र.। d) विप. > नाप. (शेष-)
e) = ताप-विशेष-। f) = अग्नि-विशेष-। g) वस. राजन्तम्। h) वस.। i) ता.
जरासाय <> जरासाय <> जिरसाय इति पठि.। j) = [वाजसनेयवती] ऋष-। k) अथते
इति पाठः। यनि, शोधः (व. वीथ. प्रथ.)। l) व्यप. इति सा (वा. भूमिका), = आदिव- इति शक. वा.।
मठ. उप. <√सृ३। m) देतु. पागम. < वाजसना-। n) = वाजसनेय-। o) = शारा- वा तद्व्यापि-
वा। p) विप. > नाप.। तद्वेदमीयः सुम् प्र. (वा ७, ३, १२६)। q) = शतपथ-आत्तण-। r) विप. (मन्त्र-)
s) = वाजसनेय-।

आपथ १, १२, ३; ७; द्विप १, ४, ३; ७.

शंजसनेषीमालममेधेन

अप्राय ६, ८.

शंज-सनि- -निम् आपथी १९, ३, २१.

शंज-सा- -साः आपथी १८, १७, ११^b; अप्राय ६, ३१.

शंजस-सम- -स आपथी १०, २, १८; -सः आपथी १६, ११, १२; वीथी १२, ६, २४; वैथी; द्विथी १३, ६, १०^b; -सम् वीथी १३, ७ : १०; -सा या २, ३६^क.

शंज-साधि- -जये साधी १८, १५, ५; आपथी १६, १८, ७, वैथी; या १२, ४५^क; -ती साधी २, ११, ८; १४, ४; वीथी ६, ३० : २५; निप २, १७; मया ९, ४४.

शंज-साम- -म बाधी ३, १, १, ३७; वैताधी २७, १.

शंज-सु- -सुत्. आपथी १८, ४, १३; ६, १७; वैथी १७, १७ : ३; १८ : ४; द्विथी; -सुते वीथी १३, ७ : ८^b; -सुतयः आपथी १८, ५, ४; ७, ७; वैथी १७, १४ : ४; १८ : ३; द्विथी १३, १, ६२; २, ३७.

शंज-सि- -सि (१-०) निम् आपथी २, ४, ८^b; माधी १, २, ५, ७^b; द्विथी १, ७,

१२^b; -सिम् आपथी ५, १३, ७^b; १२, १०, ६; १६, २, १; १५; वीथी; -सिनः शंजधी २, १६, १४; ९, १, ८; माधी ३, ८, २०^b; २२^bxx; आपथी २४, १२, ३^b; वीथी ५, ४ : १३; माधी ८, ३, १०^b; अप ५७, २, ६^b; निप ७२, ६^b; वृदे ४, १४१^b; १४२^b; -सिंजिनः आपथी २, १६, १४; माधी १४, ३, १०^b; २३; ४, १२^b; आपथी १८, ४, १४^b; १८; वीथी ११, ६; २१; ७ : २३^bxx; माधी; द्विथी १३, १, ४९^b; ६१^b; -सिनम् शंजधी १, ११, १^b; २, १६, १९; ७, १, १३; माधी १, १५, १३^b; आपथी; शंजधी १, १२ : ४^b; १४^b; ३, ३० : ५^b; शंजधी २, ४, ८^b; शेष २५४^b; अप ६, १२^b; -सिजिनम् माधी ४, ४, २०; आपथी ८, ३, १६; वीथी २७, १४ : १२; माधी; अप ६०, १, २; -सिजिन वीथी १३, २६ : १२; द्विथी २२, ४, ९; आसिप १, २, २ : १९^b; द्विप २, १९, ६^b; -सित्ति वीथी ३, १, १, ४२^b; -सिभिः आपथी ३, ७, ११^b; शंजधी ८, ३, १६^b; ७, १०; वीथी, अप ३०^b, ३, ७; -सिन्यः आपथी २, १६, १३; माधी ४, ४, १२; आपथी ८,

३, ८^b; वीथी; -सिन्याम् माधी १, ७, ४, २८; -जी शंजधी १०, ८, ४; ७; शंजधी ४, ४, २१; २२; १६, ३, ९; २०, ६, १६^b; आपथी; सु ६, ५; शिप २, १, ३०^b; पाठ २, २, ११^b; आसिप १, १, २ : ४१^b; वाप ४२, १३^b; वीथी २, ५, १६^b; अप ४८, १३^b; वृदे ७, ३; निप १, १४^b; या २, २९^bक.

शंज-सि- -सि नि वीथी ११, ७ : ३२; माधी ३, १, २, २; -सिनी वा ४८, ११०^b, निप १, ८^b; -सिनीः आपथी ८, ८, २; वैथी १६, २५ : २; -सिनीम् वीथी १, १२ : ७; ९; १२; -सिनी मम २, ७, ३८^b.

शंज-सिनी-वृ- -वृ आपथी ४ ८, ३; माधी ४, १२, २; द्विथी ६, २, १९; -वतः आपथी ६, १४, १६^b; -वतम् अप ४, ३८; -वान् वाधुथी ३, ५० : २; वीथी ३, १, २, १^b; वाप २६, २^b, माप १, १३, ४^b; वाप १५, १^b.

शंज-सिनीवली- -वलि आपथी ४, १४, ४; वीथी १, २० : ३३; ११, ७ : ३३; माधी ४, २०, ६; माधी १, ४, ३, १०; वाधुथी; वाप १, ७, २^b; -ती अप ४८, ११०^b, निप १, ८^b;

a) वैप १ द. 1 b) सप. वाजसा <> वाजसावमः (मै २, ६, ११ च) इति पामे. । c) =आति- । d) पामे. वैप १ पात्रिनम् तै १, १, १०, १ टि. द. 1 e) =अध- । f) =देशध- (द्व. भावा ५, २ एव. पृ. च) । g) उत्तरेण संशिराद्यैः (द्व. वीथी ५, ४ : १३) । h) =सप. मा ९, ९ पृ. 1 काठ १४, १७ पात्रिनः इति, मै १, १३, ३, ७ काठ १४, १, ७ पात्रिनौ इति च पामे. । i) पामे. वैप १ वाजस्य मै १, ४, ३ टि. द. 1 j) =अधि-विशेष- । k) पामे. वैप १ वाजी मा २३, २० टि. द. 1 l) सप. वाजी <> वाजस्य इति पामे. । m) =वप- । n) =[वाजिदेशवा-] सप- । o) पामे. वैप १ पात्रिनीवतः सिवा ३, ७ टि. द. 1 p) पामे. वैप १, ८२१ द. 1 q) *ती इति पाठः? वलि. शेषः ।

वा ११. २६४
 वाजिनी-वसु^१- सु
 वीष्ट २, ५, २४, -^१०म् वाश्री
 १२, ३, १४, आपथी २१, ७,
 १७, वीथी
 वाजि देस्ता-> ०द- ०यम्
 अश्र १९ २५
 १वाजिन^२- नम् अश्र ६, ९९
 १वाजिना सामर^३- -म आश्री
 ९, ९, ८, आपथी १८, ४, ९,
 वीथी ११, ८ ११, वैश्री १७,
 १३-९. हिथ्री १३ १, ५३६
 १वाजि पीठ^४- -तरय आश्री
 २ १६, १९, आपथी ८ ३, १६,
 वीथी ५, ४: १८, माथी ८, ३,
 २०, वैताथी ८, १६
 वाजि-जव- -मठ वैताथी १४,
 ७
 वाधि रस^५- -ज्याप^६ वीष्ट ३, ९,
 ५, हिथ्र २ १९, ६
 वाजि वारण-मुत्प- -रुषानाम
 अश्र ७१, १५, १०
 वाजि-वेग- -गाम सु ३, ५
 १वाजिन^७- नेतु या १, २०
 वाजो (ज-उ)व- -म निम् ७,
 ४ ४९
 १वाज्य^८- -ज्यम् वाष्ट ५, ९^१
 १वाज- -गाम ४, १, १०५, -ज
 माथी १५, १, १२, वृदे ३, ८३,
 या ११, १६
 १वाजि- -जय वीथी २१ १,
 ४८ १, -मि वीथी २१ २

वाजायन- -ना वीथी ३ ३,
 ३५: १
 १वाज्य- -पा ४, १, १०५
 वाज गन्ध्य- -प्रम् १वाज- द
 १वाजन्^१ वीष्ट २ ११, ३०
 वाजन्ति- -न्याय: वीथी ४८ १,
 वाज-यतन- -प्रम् १वाज- द
 वाजप्य^२- -गाम ४, १, ९९
 वाजप्यायन- -पा ४, १, ९९, -ना
 पावा १, २, ६४
 वाज प्रसव- -प्रम् १वाज- द
 १वाजराज्यम् अश्र ४८ ११५
 १वाज वत्- -प्रम् १वाज- द
 १वाजवत्- -वत्- (> ०वतावनि-
 प्रम्) ४जवत्- टि द
 वाजव्य- (> ०वायन-) वाजव्य-
 टि द
 वाज ध्रवस्- -प्रम् १वाज- द
 १वाजा^३- -आ अश्र १, ४१, ३, अश्री
 ११, ३
 १वाजि^४- -निम् काष्ट ४०, ६, काष्ट
 ४४ २१, वाष्ट ४, १९
 वाजिन्- -प्रम्, १ १वाजिन- १वाज-
 द
 १वाजिन^५- -नम् आथी २ १६, १३०,
 ६, १४, २१, वाथी ३, ८, २७, ५,
 १७, १४, १०, ७, वाथी ४, ४,
 ८xx, आपथी ८, २, ६, ११, ३,
 ६xx, वाथी २९ १, वीथी ५,
 २ १८, २१, ४ ५xx, माथी
 ८, २, १८, ३, ९, १०, १^६

माथी १, ७, १, ३५, २, १३,
 वाधुथी ४, ७८: ६, वाथी
 १ ७, २, १७, ३९, वैश्री ८,
 ४-१०, ५ ९xx, हिथ्री ५,
 १, ३४, ४०xx, वैश्री १०: ८,
 लाथी, -नयो वीथी ५ ९ ११,
 -नरयभाथी २, १६, १५५, वाथी,
 काथी १९ ७, १८, आपथी ८, ३,
 १०xx, वीथी १७, ५१ १६,
 ५२ ९, ५३: ११, २१, २०
 ३, ५, माथी ८ २, ३, माथी ५,
 १, ३, ११, प्राथी १२, ४, २३,
 लाथी ४, १२, १६, वैताथी ८,
 १४, -^१ना आपथी १९, २७,
 १८, वीथी, -नार वीथी ५,
 १० ४३, १८ १५, माथी १,
 ७, ४, २७, -नाभयम् आपथी
 ८, ७, ९, वीथी १७, ५६
 २०, -^१नाय आपथी १९,
 ११, ११, हिथ्री २३, २, ११,
 -ने आथी २ १७, १५, वाथी
 ५, ४, ३३, वीथी ५ ६ १९,
 ९: ४, वाथी, -नेव आथी ४,
 ७, ४, वाथी ९, १२, १; वीथी
 १७, ५१-१६, ५२-१०xx,
 माथी, -ने वीथी १७, ६०
 १०
 वाजिन चर्चा- -यां आपथी १२,
 २५, १३
 वाजिन-द्वैत- -सै वृदे ५ १६७
 वाजिन पात्र- -जम् आपथी ८, २,
 १, माथी ८ १, १७, वैथी ८

a) विप [अमृत- (तु web 118 १०, १०६] वै ३ च, नेतु मा सा (सिआ ७, १०, १) प्रम्, ०नोव
 २२९वत् इति^१)। b) विप (लिपिदक्ष्य 1 १५)। अम् प्र। c) = वी १, ४३५। d) पाथे वृ २१७५। h
 द। e) = अदि विशेष। मस। f) पाथे वृ २१८०। d। g) वै १ द। h) तरवजिनिर्माण
 म् प्र (वा ५, १, ३९)। i) पाथे वृ २१८१। d। j) पाठ १ वाजिन् (तु 1) इति शोध। k) स्वप।
 वाज्यम् इति पाठम्। l) = देवी विशेष। m) = कोपक्षि इति भाष्यम्। n) = वाजिना-जल- (तु म
 154 ३, २०)। वै १ द। o) = वाग विशेष- (तु १५४, प्रम्)। तदति वृत्तिः।

४: ३, हिथी ५, १, १२; -त्रे
 आथी ८, ३, ६; वैथी ८, ७:
 ४, हिथी ५, १, ३४.
 वाचिन-सङ्घ- -स वाथी ५, ५, २४,
 -सम् वाथी २, १६, १७, -स्येण
 वाथीसं २२-१
 वाचिन मिथ- -सम् आसिथ २, ८,
 १: ३, कौथि १, १४: ३, हिथि
 १४: ८, -स्येण आसिथ २, ८,
 १: १६, कौथि १, १४: १५.
 वाचिन-वत् वाथी ६, ८, २०, २६,
 ६, १९, वाथीसं ३५ १, ३,
 वैथी १०, १९ १६, वैताथी
 १४, ६
 वाचिन-वत्सं वाथी २, २०, ३.
 वाचिन शेष- -सम् भाथी ८, २, ३,
 हिथी ५, १, १६, -स्येण वाथी ४,
 ४, १३
 वाचिन(न-अ)वस्य-वत्सं वाथी
 २, १८, १७.
 वाचिन(न-आ)थिन वत्सं- -संवात्
 वाथी १२, ४, २०, वाथी ४, १२,
 १५
 वाचिनै(न-ए)कदेश- -स्येण आथी
 ८, २, ९, वैथी ८, ५ ६.
 वाचिनो(न-उ)केश- -स्येण भाथी ८,
 ३, १५; वैथी ८, ७: ८, हिथी
 ५, १, ३९.
 वाजी^१- -स्येण पाथ ३, ४, ८
 वाजीक-^२, -वाज्य- -वाज- -द.
 स्वाज्य- -वाज- -द.
 वाजेय- -वाज- -द.

√वाञ्छ् पाथा. भ्वा. पर. इच्छाम्,
 √वाञ्छति श्रव ४८ ३, निघ २,
 ६, √वाञ्छन्तु वीथी १८, १६:
 १४, हिथी ११, ३, ३५, कौथ
 १४७, ८, श्रव १९, १, ७, √वाञ्छ
 कौथ ३५, २१^३, श्रव ६, ९.
 वाञ्छ- -ञ्छन् तु १, १.
 वाञ्छायन्^४- -वा वीथीप्र ३२: १.
 वाञ्छेयक- -वञ्छी- -द.
 वा याद्^५ वा. १, १३, १^६,
 श्रव १, १३^३, पाथ १, ४, ५७
 वाद्^६/ह^७>कार-> वा(र श)
 वा^८- -वा: वाथी १८, ५, १६
 वाटर- -वटर- -द.
 वाट्ठव^९- -वत् वीथीप्र ४५: ३.
 वाटाकथि- -वाटकु- -द
 वाट्ठ^{१०} वा २, १.
 वाडमीकार्य- -वडमीकार- -द.
 वाडव-^{११}, -व्य-^{१२}, -वत्, वा- -द
 वाडाक- -वाडा- -द.
 वाड्यलि^{१३}- -पाथ ६, ३, १०८.
 वाडम्^{१४} श्रव ३, ६, १३
 स्वाण^{१५}- -स्वाण- -द
 स्वाण^{१६}- -वा अथ ४८, १०२, निघ
 १, ११.
 वाणिफाज्य-(^{१७}ज्य-विद्य-^{१८}) वाति-
 फाज्य- -ति द.
 स्वाणिज- -स्वाण- -द
 स्वाणिज- -स्वाण- -द
 वाणिजक-^{१९}, -णिज्य- -वाणिज- -द
 वाणी^{२०}- -वाणी श्रव १, २४, १०^{२०}, श्रव
 ४८, १०२^{२१}, निघ १, ११^{२२}, वीथि

१७२, १७३, माथि, -थी माथ
 १, ४, ४, ८; वाथ ८, ४^{२३}, श्रव
 ४८, १०२; वा ६, २^{२४}, वीथि
 १३, १२, -वाग् श्रव १३६:
 ३०.
 वाणीची^{२५} श्रव १, २४, १०^{२६}, श्रव
 ४८, १०२, निघ १, ११
 वात् वाग १, ४, ५७
 √वान् पाथा तुला लभ सुपमेवयो.
 स्वात्-^{२७} वा द
 स्वात्^{२८}- -पाथ ४, १, ९९.
 स्वातायन- -पाथ १, ९९, -न
 श्रव २, १०, १६८, १८६, श्रव
 १, १८४.
 वातकि^{२९}-(^{३०}ज्य- वा) पाथ ४, १,
 १५१.
 वातकिन्-^{३१} वा द.
 वातकोपमे सुथ २५
 वातण्ड^{३२}, -ण्ड- -प्रथ वतण्ड- -द
 वातागर^{३३}- (> शीथ- वा) पाथ
 ४, २, १०.
 स्वातापि^{३४}- -विद्य वीथी ७, ४:
 १५, -०वे वाथी १०, १७, ६^३,
 हिथी १२, ६, ६^३
 स्वाताप्य^{३५}- -ज्यम् निघ ४, ३, वा
 ६, २८^{३६}.
 स्वातायन-^{३७} वा द
 वाति- पाथ ५, ६.
 वातिक-^{३८}, वात्-^{३९}, वा(त्य>)त्पा-
^{४०} वा द.
 वायक- (> कक- वा) पाथ ४, १,
 ५३.

a) देवी विज्ञेयः । b) वाञ्छ इति पाठ २ वनि सोम. (ह. श्रम) । c) व्यप । d) = वद्, वपद् ।
 e) पाणे. वैच १ वृत् मा २, १८ टि. द. । f) वस । g) अर्थ १ । वा^३ इति शिवसं. रक. दु, <√भट्
 इति रक. दु, <√षट् इति [पथे] रक । h) व्यप । वनि <वाप्-वाद्- । वत् पाथा. वाट्ठालि इति विहित
 मण्डोपाईम् (ह. पाथ) । i) कञ्जुपनामार्थे ध्वज । j) १ १८०३ वनि. संख्याविदेश ३ । k) = वाच्- ।
 l) वैच १ द । m) = संगीत- इति श्रुति । n) पाठ २ तु १ ६०९ h टि. । o) अर्थ. १ ।
 p) = स्या शान्त २७, ४ । ३ १, ९, १ ८, ११ तु वातायन इति, वैद्य ३, १ वागपे इति च पाथे ।

१ वात्स- १ वत्स- द्र
 २ वात्स- २ वत्स- द्र
 वात्सक- १ वात्सक- १ वत्स- द्र
 २ वात्सक- वत्सक- द्र
 वात्सप्रायण- वा वीथीप्र २० २
 वात्सभालि- -रय. वीथीप्र ४३ ४
 वात्सवन्ध- १ वत्स- द्र
 वात्सी पुत्र- २ वत्स- द्र
 वात्सोद्धरण- १ वत्स- द्र
 वात्स्य- वात्सपान- प्रभु २ वत्स- द्र
 घाद- वादन- प्रभु ✓ वद् द्र
 वा दावान्^b कौशू ४६, ५४^c
 वादि-^a, -^क, -^{प्र}- ✓ वद् द्र.
 वाद्भुतक- वद्भुतक- द्र
 वाघ- ✓ वद् द्र
 वाघम् अण ६५ २, १०
 वाघमान- ✓ वद् द्र
 वाघव-^a, -^क, -^{धूप}- वद्- द्र
 वाधूल-^a -क वीथीप्र ६ १, वाधूथी
 ३, ३ १ १६ ४, ४, ७४ ३२, ८६^d
 ११, -लाय वाधूथी ३, १ १
 वाधूल क-^a वत्स्य वीथी २२, १ ३
 वाध्वीग-^a, -वायन- वध्वीग- द्र
 वाध्वीप-^a, -वायन- वध्वीप- द्र
 वाध्वशय- ✓ वद् द्र
 वानपौत्रौदाभ्येय- २ वत्स- द्र
 वानजायन- ना वीथीप्र १२ २
 वानप्रस्थ- २ वत्स- द्र
 वानर-^a र शय ३७७ १५, -रम्
 अण ४०, १, १४^f, ७३, ६, १,
 -रा अण ६४, ७, १, नाति २,
 ६१, -रेण अण ३६ १५, २
 वानरि-^a -रीम् अण ६८, ५, ३
 वानर विह मागारि-अण्डक-अण्डक-

व-वध-^a -ये गुण ८६ १३
 वानरो(रउ)ग-^a ना अण्ड १३, ५
 वानव्य-^a (>^aव्यायन- वा) पाग
 ४, १, १९
 वानस्पत्य- प्रभु वनस्पति- द्र
 वानापन- २ वत्स- द्र
 वानितीय- वनिता- द्र
 वानीर- पाठभो २ ३ ५०
 वानेय-^a, -शेषक- २ वत्स- द्र
 वान्त- ✓ वद् द्र
 वान्ती निरु २, ९ ३२
 वान्दन- ✓ वद् द्र
 वान्या- ✓ वद् द्र
 वयान्या- २ वत्स- द्र
 वाप-^a, -पन- प्रभु वापि-, वापित-
 ✓ वप् (वषा) द्र
 वापी- पाठ ४, १२५, -व्याम् अण
 १८^f, १५, १
 वापी-कूप- पे अण ७२, ३, ३
 वापी कूप-तडाग- गोपु अण ७०^g,
 १३, १२
 वापी उदागो (ग उ) वपान-^a -नेपु
 शय १२९
 वापी तडागो (ग उ) वपान-भेद्-
 मार्ग रस द्र०य-दूषण^a- गोशय
 ३१९
 वाप्य- ✓ वप् (वषा) द्र
 वाम् सुप्रभु- द्र
 वाम् निरु १, ७ २८
 वाम- ✓ वप् द्र
 वाम, मा(वषा)^a - पाठ १, १४०,
 पाण्ड ३, ३३^f, -म वृदे ४, ३३,
 निप ३ ८^f, -मण् ण्वाथो ३
 १०, ८, २, १६, ११^f, वा. गी.

वीथी २५ १०. १४, वाधूथी ४,
 ६४^a- ११, १२, वाथी ३, ३,
 २ ३२^b, जैथी ३ ७^b, वैथ ३,
 १६ ११^c, अण्ड ४८ ८०^f, वषा
 ६ २२^f, ३१^f, २२ ४६^f,
 -मम् ५-मम् वा ६, ३१^f,
 -ण्मरय आथी १, ९, ५, शोथी,
 ना ४, २६^f, -मा आथी ५,
 ७, ५ शोथी, -मात् गोए ४,
 १ ४^f, -ण्मानि आथी ४,
 ५ ७, आथी, -माया वापि
 १, ५०^b, -मे^b जैथीका धरे कौश
 २, १, २२, शोथ, वैथ ३, २१
 १४^f, -मेन आथी ४, १४,
 २^f, शोथी, वैथ १, ११ ९,
 १९ ३६, गोए २, ९, १५, अण
 २८, १-२, ३, वैथ २, १०, ७
 वषामी^a -मी माथी २, ५, २,
 २२, जैथी १९: १७, जैथीका
 १९३, अण्ड १८, १४, -मी
 वीथी ८, १४. ३८
 वाम-सख() वापि ३, ५, ६ ३,
 वैथ १, १३ १०, अण्ड १, ३,
 १२x, वीथ,
 वाम पाद-^a -दस्य वापि २, ४,
 ७ ११.
 वाम पादव-^a -द्वे विष ९०, २२,
 वैथ २, १०, ३
 वाम भाज-^a -भाज वापथी ६, १३,
 १^f
 वषाम भृत्^a -भृत्तम् आथी १६
 २४, ३, माथी ६, १, ७, १५,
 वाथी २, १, ६, १५, वैथी १८,
 १७ १५, द्विती ११, ७, ३३

a) = ऋषि विशेष-। b) पाठ (तु 'वा इति गूणे)^१ पादाब् आ (अण्ड) इति शेष (तु वैप १, ११०४८, २२२३)। c) नाप (मर्षट): d) द्रय एर उव चद्रस > पस। e) वैप १ द्र। f) निप (अति, एवयत्-प्रभु), नाप। g) तु पावा पापि। ३ वाम(न >) ना- इति माएडा। h) विर। = दमिपार। i) विप का इति। j) = घन-। k) विप > नाप (दक्षिणेत-)। l) = इहवा-विशेष।

वाम सुष्टि-गृहीत-ना अथ २३,
४,४
 वाम मोष- प वीथी २५,१०.
 १३
 वाम-लोचन->ना- ना नाशि
 २,८,१७
 वाम हस्त- स्तेन अथ ४, २, ५,
 ३१,९, ३, अथ ४२६, वैष २,
 ९, ५ ३६,९
 वामीय- -वम् अथ २,९
 वामो(म-ल)रु- वा ४, १, ७०,
 -०रु विध १,६४
 वाम-देव- -व अथ २४, ६,
 १७, वीथी १६ १, द्विथी २३,
 ३, ९, -व सु १, ५, अथ ३,
 ४, २, कौश २, ५, १, शाय,
 सुदे २ x १^६, -वम् शाय ६, १,
 १, -वस्व निम् ८, ६ २९,
 चाथ ५ ३x५, -वा ६
 अथ २४ ६, १६, द्विथी
 २१ ३, ९, -वामान् अथी
 २२, ११, १, वीथी १६, १,
 वैष ४ ४, ७, ५, ४, -वाथ आयु
 १, ३, २ २०, वीथी ९, ५, भाए
 ३, १० ६^५, द्विथी २, १९, ६
 वामदेव- -वे ऋषा ७, ५५
 वामदेव मोक्षम-रुस विरवाभि-
 -त्रा अथ २०, १३.
 वामदेव भारद्वाज- -त्रयो चाथ
 ४० १२
 वामदेव पर आथी २४, ६, १७,
 वीथी १६ २, द्विथी
 वामदेव- -वा ४, २, ९, -०व
 आथी १२, ११, १, -व ऋष

२, १०, ५४x५, सुभ १, ५६६,
 ३, १३x५, साभ १, ६५ २२६,
 -वम् आथी ८, १२, २६, १०,
 २, ७, शीथी, वाथी १८, ३, २,
 आथी ५, १४, ४, १२, ८
 ५, १७, ७, ८, २२, १५, ५,
 १८, ६, वीथी १८, १५ ६,
 भाथी ५, ७, ११, माथी,
 -वस्व आथी ८, ७, ७, शीथी
 १०, १२, ४, १३, ११, आथी,
 -व्याव निम् ४, १० ३, -व्याव
 शीथी १७, १३, ४, शीथी १०, ३,
 ६, लाथी ३, ११, ३, -वे आथी
 ५ १६, ४^५, १४, ३१, ४, भाथी
 ५ १, १३^५, वाथी १, ४, ४, ३^५,
 वैथी, -वेष आथी १, ७, ७^५,
 आथी ५ २६, ५^५, १७, १२,
 १०, वीथी १०, ४९ १५, १४,
 २० २३^५, भाथी ५ १८, १^५,
 माथी १, ५, ४, ६, वैथी १२,
 ६ ६१, वैथी, सत् ३७, ८१
 वामदेव शोश- -वे लाथी ७,
 ७, ३१
 वामदेव्य गान- -वम् गौश १,
 ९, २५
 वामदेव्य-भद्रा(ह-प्र)रु- -वे
 वाथी १४, २, २०
 वामदेव्य-जय- -व कथ १, ९,
 ९, -पाव कथ २, ४, ९
 वामदेव्य-शुभ- -व लाथी १०,
 १३, १३
 वामदेव्य भक्ति- -क्ति निम्
 ६ ६ २२
 वामदेव्य-वशावलीय- -वे निम्

२, ९ ३०
 वामदेव्य-यज्ञायणीया(व अ)
 रथगेय पृष्ठ-पूर्व- -वाणाम्
 लाथी ६, ३, १०
 वामदेव्य(व अ)रु- -वर्षिभ
 शाय १, १९, -वर्षि गौश ४,
 ६, ७, ७, ३१^५
 वामदेव्य साक्षर- -रे आथी २,
 ११, ७
 वामदेव्य सतत- -वाम् निम् ६,
 ८ ४१, ८ ६ ८, ४६
 वामदेव्य स्थान- -वे निम् ६,
 ५ ६
 वामदेव्यो(व अ)रु- -रे निम्
 ४, १२ २६
 वामन्- (>वामन्- वा) वाग ५,
 १, १००
 वामन्- -व आथी २५, ३, १२
 आथी २५, १५, १४, वीथी १६,
 २४ १२, २५ १७^५, १९, २३,
 १२ ३, द्विथी १७, ६, २६^५,
 शंष ३७७ ६, -वम् आथी १२,
 ७, ११, आथी २१, २३, ४,
 वीथी १२, २, २, ४ १५, १७.
 २२, १६, १९ ८, माथी, आयु
 २, ५, ७ १०^७, वीथी १, ११,
 ७^७, वैथी ३, १३, ४^७, वीथी २,
 ५, २४^७, -ना विध ४५, २२,
 -नाथ अथ ३६, १, १५^७
 वामन्->ना-
 वामरजु-
 वामन्-रु- -वाग ४, १, १५१, -वरथ
 वावा ४, १, १५१
 वामरथि- धीनाम् वीथी २७ ७

a) वैष १ ३ । b) निर > नाप । वष । c) = वामान्द वर-ज हृत्- । d) वत । e) = अवि-
 विषेय । f) विवर्तलोच (वावा ८, ३, ३६) । g) वहु < वामदेव्य । h) = तदुत्तर । i) भ्यप
 (आथी ऋष प्रम्) । j) राम्ने ह्य । k) ह्य > वत । l) विष, नाप । m) = अन्तर निघ्न ।
 n) = २६-१ । o) पृ २१८४ हृत् । p) पृ १०७१ b ६ ।

वामरथ्य- वा ४,१,१५१.
 वामरथ्य सुमङ्गल-वीजवाप-
 -मानाम् हिथ्री २१,३,११^०.
 वामरथ्य-सुमङ्गल वीजवापि-
 -वीनाम् आपथी २४,८,१३^०.
 वामि- पाठगो २,१,१६६.
 वामीय-वामोरु- २वाम- द्र.
 वात्र- वन- द्र.
 वाय.^० वा ६,२८^१
 वायति^० आपव १,१२,३, हिथ १,
 ४,३.
 वायरज्जु^०-
 वायव- ✓वा द्र
 वायवत^०- न्वा वीथीप्र ३० : ३
 वायवायनिन्^०- निन वीथीप्र ३
 १२.
 वायवी-, वाथ्य- प्रम् ✓वा द्र.
 वायस- १वयम्- द्र
 रवायस- ३वयम्- द्र
 रेवायस^०- पाठ ३, १२०, -स वीथ
 ३,६,१, कौम् २५, १, ३, वथ
 ३७७ १५, ३७८, वाथ, -सा:
 आग्निष्ट २, ४, ८, १६, अत्र
 ६४, ७, ९, -साम् आग्निष्ट २, ४,
 ८ १०^१, -साम् आग्निष्ट २,
 ४, ८ १, ४, अत्र ६४, ५, ३,
 -सेभ्य आग्निष्ट २, ४, ८ ५^१,
 वेष्ट ५, १३ : २४
 वायसी- -वीनाम् कौम् ११७,
 २^१
 वायस शृध-संघ- घे अत्र ७०^१,
 ११, ३-
 वायस पुच्छ^०-> च्छा- -च्छा. ६

वीथी २०, १६ : १५, माथी १,
 १६, ६
 वायसपुच्छी- -च्छ्व हिथी १,
 ४, ३२^१.
 वायस प्रचलाक-वर्हिण चक्रवाक-
 हंस भास-ननुल मण्डूक-देरीका-
 श्व-हिंसा^०- -सायाम् आपव १,
 २५, १४, हिथ १, ७, ११
 वायस दलि-द्वान्- -गेन आग्निष्ट
 २, ६, ४ - २६^१.
 वायसनात्रक- -कान् आग्निष्ट २,
 ४, ८ ७.
 वायस समवाय- -न्या. अत्र ७२,
 ३, ७.
 वायि अत्र ४८, २^१
 वायु- प्रम् ✓वा द्र.
 वायुपूट^०- -टा वीथीप्र ३० : ३.
 वायुपूत- प्रम् ✓वा द्र
 वायुस्तम्भ^०- -न्मा वीथीप्र १७ १२
 वा योग- वा द्र
 वायोघस- २वयम्- द्र
 वायो-यानी- प्रम् ✓वा द्र
 वाय्य- वय- द्र
 वायग्नि^० प्रम् ✓वा द्र
 वाय^०- वा शात्री १२, १६, १,
 काथी ५, ४, ११, आपम १, १५,
 ६, अत्र ४८, ७५, निथ १,
 १२, वा ५, १२, ९, २, अत्र,
 वार वृदे ४, ३८.
 वायार^०- -रथ आपथी १६, २०,
 १४, हिथी ११, ६, ६१, -राम्याम्
 माथी १, २, ३, १२, हिथी १, ६,
 २६, -रे शाथी १०, १३, ५,

-रंण वीथी ११, ३ १४, १७,
 ३४. ३, -रेभि अत्र ४६, ३, ६
 वार-वत्- -वन्वत् वा १, २०^१
 वारवन्तीय^०- -यन् आथी ६,
 ८, १२; १०, २, ८, आपथी १६,
 २०, २२, २२, ६, १०, वीथी,
 -यस्य द्राथी ९, २, १, शाथी
 ३, ६, १, ७, ४, ८, छुम्, -ये
 शाथी ६, १०, २, ७, ३, १, ४, ३,
 -येन आपथी १७, १२, १०,
 वीथी १०, ६९. १३, माथी १,
 ५, ३, १६, वैथी १९, ६ : ६१,
 वैथी ४ : ७.
 वारवन्तीय यज्ञवल्कीय-
 -ये द्राथी १२, १, ३६, शाथी
 ४, ९, २२.
 वारवन्तीय इवैत- -वाम्याम्
 जैथीवा २६, -ते माथी ५, १,
 १०.
 रवार^०- -रथ अत्र ७, २१, -रंण
 आत्रो ६, ११
 रवार- ✓व (पररो) द्र
 वारक्य^०- क्वा. वीथीप्र ३१. १
 वारज्ज- पाठ १, १२२
 रवारण^०-> ण-वर्द्ध- -र्वा वीथ १,
 ५, १३३.
 रवारण^०- -न्य अत्र ६१, १, २१, -णम्
 वाथुथी ४, २९^१ १, ५, -णम्
 अत्र १८, ३, ६, -णनाम् अत्र
 ७०, ३, २.
 वारण-सनिभ- -न्मा अत्र ७०^१, ४,
 ४
 वारण स्थ- -न्या अत्र ६१, १, ९

a) परतरं पठि । b) वैप १ द । c) पाठ १ वात्-> वाति (सात्र १) इति शेष (द्र मात्र ११, ५, ६, ८, वैपु मायम् < ✓वै इति) । d) वृ १००१ b द । e) = नापि विशेष- । f) वस । g) परतरं पठि । h) 'भासमण्डूकननुल' इति आपव पाठ । i) वासवलि^० इति पाठ १ यति. शेष (यु साम. आग्निष्ट २, ४, ८ : १ प्रम्) j) = जल । k) = १पाल । l) = दिन- । m) = पति-विरंण- ।

३-५ वारण- $\sqrt{४}$ (प्रतिपाते) द.	वार्य(रि-अ)गिन-दान- नैन रिष २३, ३१.	वार्चलीय- वर्चल- द.
वारणसंनिभ- वारण- द.	२३, ३१.	वार्च्य- $\sqrt{५}$ द.
वारणीसहित- नानि अत्राय ३, ७.	२वारि- -रि निम् १, ५ : २०; अत्रा १७, ५.	वार्च्यक- वर्च- > १५५४- द.
वारतन्तवीय- वरतन्तु- द.	३वारि- पाठ ४, १२५; पाग ४, १, ४५ वारी- पा ४, १, ४५.	२वार्च्यक- २वर्चक- द.
वारचक- $\sqrt{४}$ (आच्छादने) द.	वार्चरिति ^१ - -तीनाम् आश्री ३, ६. १३; वाधो ५, २०, ४.	वार्चकरोपिक- वर्च- > वर्चक- पेदिना- द.
वारवाण ^२ -	वार्चिवापयन्त ^३ - -ताः ^१ आश्री २४, ९, ९; वीथीप्र ४० : १.	वार्चक्य- २वर्चक- द.
वारशिख- वरशिख- द.	वार्च गो १, ७.	वार्चव- , वरु- वर्चु- द.
वारटकि ^३ - (> षीय-) -किः वीथीप्र ४५ : १०.	वार्चक- वरु- द.	वार्चवनात्- वर्चवनात्- द.
वारटकि ^३ - (> षीय-)	वार्चक- वरु- द.	वार्च(तं)र्चि ^४ - > वर्च-वृत्ति ^५ - -तिः वैष १, ५, १; २.
वारणसी ^१ - पाग ४, २, ९७; -त्वाप शंष १९४, विष ८५, २८.	वार्चक- वरु- द.	वार्चक- पाठ ४, १५.
वारणसेय- पा ४, २, ९७.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्च- , वार्चिक- $\sqrt{५}$ द.
वारायण-, षीय- १५२- द.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य ^६ - वा, पाग ५, ३, ११७.
वार्चवारयस्कन्दिन् ^७ - -०न्दिन् द्राश्री १, ४, ७; लाश्री १, ४, ४.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य- , षी- , वरु- , वरु- द.
वार्चवारह- १वार्ह- द.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य- , षी- , वरु- , वरु- द.
वार्चवारह-, षि- २वार्ह- द.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य- , षी- , वरु- , वरु- द.
वार्चवारही- १वार्ह- द.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य- , षी- , वरु- , वरु- द.
वार्चवारही ^१ - -ही षि ३, १३.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य- , षी- , वरु- , वरु- द.
वार्चवारि ^१ - पाठमो २, १, १६६; पाग ४, १, ४५; -रि अत्र ४८, ७५५; विष २२, ८८; २३, ७; निष १, १२५; माशि, -रिण वप्र १, ८, १४; २, १, ४; शंष १४७; विष ८१, २१; मुषण ८७ : १४.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य- , षी- , वरु- , वरु- द.
वार्चि-विकि- -कम् वैष ३, ४, ५.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य- , षी- , वरु- , वरु- द.
वार्चि-वप- वा ^१ , पाग ५, ३, १००.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य- , षी- , वरु- , वरु- द.
वार्चि-वपिक- वावा ५, १, ७७.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य- , षी- , वरु- , वरु- द.
वार्चि-वर्ण- -ने अत्र ३५, २, ७.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य- , षी- , वरु- , वरु- द.
वार्चि-वर्ण-वत-वाप- -नोव वरु ६, १४ : ४.	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य- , षी- , वरु- , वरु- द.
वार्चि-वीच- -वेर अत्र २३, १३, ३	वार्चक- , वरु- , वरुकि- वरु- द.	वार्चक्य- , षी- , वरु- , वरु- द.

a) वृ १८२८६. b) वृ ५५५८६. c) अत्र. d) = नगरी-विशेष-। e) विष.

(वर्चि-). पाठः १ वार, अत्र इति द्वे वदे द. (वृ. लाश्री १, ३, १ गौर, अवरसन्दिन् इति). f) = गायत्री- छन्दो-
विशेष-। g) = अत्र-। h) वैष १ द. i) < वारिषक-। j) = छन्दो-विशेष-। l) = वार्चि-विशेष-।
m) पाठः १ वार, ला २५, १५, ३ वीथी १७, १८ : ४ मद्राः
इति। n) = इत्यादि-। < वृषि-। o) = वृष्य-वेद-। पग.। p) = आयुष-वीथि-विशेष-।

वार्थ- $\sqrt{3}$ (वरणे) द
 विवर्धन्तम् वैष्ट २,८ १७
 वार्वरक-, वीय- वर्वर- द
 वार्धगण-, वय-, वाधि- वृषपय- द
 वार्धम- वृषम- द.
 वार्धल-, वलि- वृषल- द
 वार्धशक्ति-, 'सहस्रिक १३१- द
 वार्धकप- वृषाकपे- द.
 वार्धगिर-, वार्धगद- $\sqrt{2}$ द
 वार्धक- १३१- द
 २ देवार्धक-, वार्धहृष्य- $\sqrt{3}$ द
 वार्ध्व- २३६- द
 वार्धक- वृष्य- द
 वार्धवृद्ध-, 'द्वयन वृष्य वृद्धि- द
 वार्ध्वय- वृष्य- द
 वार्धमण- $\sqrt{3}$ द > वर्धन्- द
 वार्ध्वयजि- २३५- द
 वार्धा। देवा। ल^०- पाठ २, ४, ३१,
 ४, १, ४५, ५६, -ल वार्ध्वी
 ४, ६४ ६, १०, सु ५, ५
 ७, १७, ३१ ६, ३५ ४x, ४
 गाथी, -ला कौत् ६५, ९५,
 या १ २०६, -लात् अम १०,
 ११५, -लात् कौत् २७, १५
 -ले आपथी १९ ६, ५, ७, २,
 वीथी १७, ३६ ८ द्विथी, -लेन
 काथी १४, १, २७, आपथी १९
 ६, ११, वीथी, -लपु आपथी २०,
 १५, १०, ११, वीथी १५, २५
 ७, द्विथी १४, ३, २२, माति
 वार्धी- पा ४ १, ४५
 वार्ध वीर-वासव- सा शय ३८९

वाल दाम-वद- -दम् काथी १५,
 ३, १८
 वार्ध धान^०- -नेन द्राथी १०, ३,
 ४, लाथी ३, ११, ३
 वार्ध-धि^०- -धिम् वीथी १५, १७
 २२, द्विथी १४, ३, ११, लाथी ९,
 १, १८, -धी वार्ध्वी २०, १३, ४
 वार्ध पवित्र द्विरण्य- -ण्यानि काथी
 १९ ३, २३.
 वार्ध प्रतिग्रथि(त >) वा^०- -ता
 वार्ध्वी १८ १०, २३
 वार्ध मय- -नेन वार्ध्वी १९, १,
 १८, वीथी ११, २ १४, १७
 ९ ७, द्विथी १३, ८, १७
 वार्ध वद- -वन्तम् या १, २०६
 वार्ध शि(सा >) ल^०- -सा
 वीथी ३ ४७ ३
 वार्ध स्तु(क >) का^०- -कम् कौत्
 २७, २६
 वार्ध खान^०- वम् वार्ध्वी १९,
 १, १७, ४, ९, वीथी ११, २
 १३, द्विथी १३, ८, १६
 वार्ध(ल म) निधील- त वार्ध्वी
 १८, १०, २१५^०
 वार्ध(ल म) वृत्त- -त^० वार्ध्वी
 १८, १०, २३, द्विथी १३ ४, १०
 वार्ध ल^०- लम् या ११, ३१
 वार्ध(न >) नी- नी या ११, ३१
 वार्धक- वल- द
 वार्ध खिल्य, वार्धा (वार्धा)^०- -व्य^०
 वैष्ट १, ७, २, ६, -वार्धा वार्ध्वी
 ८, २, ३, वीथी १२, ६,
 १२x, काथी १७, ९, ११^०

वार्ध्वी १७, २, ५^०, वीथी १०,
 ४० १६x, वीथी १९ ३ १३^०,
 द्विथी १२, १, १६^०, सु १, ३x,
 साग्र १, २३५^०x, -वार्ध्वी वार्ध्वी
 ३, २, २, ५, सु २, ४, -वार्ध्वी
 वार्ध्वी ८, ४, ८, वार्ध्वी १२, ८,
 ३, १८, १०, ११, वीथी २२, ८
 ६, सु २, ६, वार्ध १७ ३,
 -वार्ध्वी वीथी १०, ४० १७^०
 वार्ध खिल्यक^०- कम् वार्ध्वी ३ १५
 वार्ध खिल्य लोक^०- -कम् वार्ध्वी
 १७, १, १०
 वार्ध काज्य^०- (> वार्ध विध- वा)
 पाठ ४, २, ५४
 वार्ध कायन- वलिक- द
 वार्ध ज, ज्यक- (> वार्ध, ज्यक
 विध- वार्ध काज्य- टि द
 वार्ध खिलि अत्र ४८, १११^०
 वार्ध क, वा^०- पाठमो २, २, २६, -कै
 वैष्ट ५, ८ ६
 वार्ध क-प्रदेश- -से वैष्ट ५, ८ ५
 वार्ध का(वा म) द्वार-धान्य-
 -वार्ध्वी वार्ध ६४, ५, ३
 वार्ध का(का म) न्त^०- -स्ता अत्र ९
 ४, २
 वार्ध का स्थण्डिल- ले अत्र ३६
 २६, १
 वार्ध व^०- व वीथी १८ २६ १३
 -वा वीथी १८, २६ २०
 वीथी २७ ७
 वार्ध वयक- वार्धा- द
 वार्ध वय्य-, वार्ध्वी- २७- द
 वार्ध मुक- १ ल- द

a) कौत् अत्र माति वार्ध प्रथ पाठ । b) वैष्ट १ द । c) = वार्ध धान- । d) विप (गेव्यखिलि रज्जु) । सु ४ ११५५ d । e) = ऋषि विशेष । f) = ज्योषि विदेश- । वय । g) = द्विर- पविद- । मलो कम उव करणे षम् प्र । h) पाठे वैष्ट १ वार्धकपित्त मै २ ६, ५ टि द । i) = वर्ध । j) = इष्टका विशेष- । k) = सामगण विशेष । l) पूर हव । m) वार्धक- , वार्धकाज्य इति पाठि, वार्धक इति पाठ । n) = विवदान- । o) वय ।

वाल्गुद^३ - दः विध छठ, ३०.
 वाल्मिकि^० - (> कौषि -)
 ईवाल्मीक - १वल्मीक- द.
 वाल्मीकि - , वल्मीकी^० - २वल्मीक-
 द.
 वाल्लक - वलि - द.
 ईवाल्ला अथ छट, ११५१.
 वाच^० ईआपथी १०, २०, ३; ४; १६,
 १७, १६; वीथी; पा ८, १, ६४;
 - पण १, ४, ५७.
 वा-वचन - प्रमु. वा द.
 वाचत् पण १, ४, ५७.
 वावदत् - √वृ द.
 ईवावदितो वाथी ३, १, २, २८.
 वावदूक - √वृ द.
 वावर^० - रम् आथी १०, २, २७.
 ईवावदान, ना - प्रमु. √वृ द.
 वावसान - √वृ (वधा.) द.
 वावहि - √वृ द.
 वावात^० - ना श्रम ९, २६१.
 वावाता^० - तवा शीथी १६, १, ७;
 -ता शीथी १२, २१, २; काथी
 २०, १, १२; ५, १५; आपथी,
 -ताम् आथी १०, ८, १२; शीथी
 १६, ४, २; आपथी २०, १०, २१;
 काथी; -ताया काथी २०, १, १७;
 -तापि आपथी १८, १०, १४;
 वीथी १२, ५ : २१x४; हिथी
 १३, ४, ५.
 वावाता-सेवेदान -> ज-साविन्दु-
 चरम-द्रागान-परिक्ल-एति-
 नीः काथी २०, ३, ५
 वावात्^० - मुः श्रम ९, २६१.
 वा-विधान - वा द.

वावृधान - , वावृष्यस् - √वृ द.
 वावृपाण - √वृ द.
 √वाशु^३ पाधा. दिवां. आरम्. शब्दे,
 वागन्ते रूप ७०^१, ६, ४.
 वाश्यते कौस् ६२, २११; वर
 ७०^१, ७, २; वाश्यति अत्राय २,
 ४; वाश्यन्ति अत्र ७०^१, ५, ५;
 वाश्यते शीथी ३, २०, १; काथी
 २५, १, १८; ९, १३; आपथी ९,
 ५, ११; १७, ६; वीथी; वाश्यत्
 जैगु २, ७ : ४^१.
 ववास सुदे ४, १३; ववासिरे
 वा १, १०१; ईववासिष्ठाः
 शीथी १३, २, ३; आपथी ९, ५,
 १; १७, ६; वीथी २८, ६ : ३;
 वीथी २०, ३४ : ७; हिथी १५,
 ८, ५.
 वाश्यते वा ४, १६.
 वाशयेत् वीथ ३, ६, १^१.
 रवायदान - नाः ईया १४, १४;
 १५१.
 वावश्यमान - नामि वा १४, १५.
 वाशन - पाण ३, १, १३७^१.
 रवाशि - पाठ ४, १२५.
 वाशित, ता - ना वाशुथी ४, ८९ :
 १३; -ईताम् आपथी १९, १६,
 २४; आपथ २, १३, ७; -तायाम्
 छ १४, १; -ते वीथ ३, ५,
 १३१.
 वाशितुम् वीथी २२, ७ : १५.
 वाश्यत् - इयन्तः अत्र ७०^१, ७, ४.
 वाश्यमान, ना - नम् पाण ३, १५,
 १९; श्रम २, २, ४३; -नाः पाण
 ३, ४, ४१, -नाम् पाण ३, १५.

१८; -नापै वाथी ३, ११, ४;
 -ने शीथी १३, २, ३; आपथी
 ७, १७, २; हिथी १५, ८, ५.
 वाश्र, प्रा^० - पाठ २, १३; -था
 आथी २, १३, ७१.
 ईवाश - रवस - द.
 २-ईवाश - रवसा - द.
 श्वाश^० - (> वाशिल -)
 ईईवा(श)शा^० - नाः आपथी १८,
 १३, १३; २९, २६, १; वीथी
 १२, ८ : १३; हिथी १३, ५, १४;
 -०ताः आपथी १४, १८, १;
 वीथी १३, ३८ : ८; हिथी १५-
 ५, ४; २२, ६, ६; आमित.
 रवाशा^० -> शा-कापील-सितीवार-
 सद्गुण्या - न्वाः कौस् ३९,
 ६.
 रवाशि - √वाश द.
 रवाशि^० - लयः वीथी ६ : ३; १२;
 २; ३२ : २.
 वाशिष्ठावनि - वशिष्ठ - द.
 ईवाशी^० - नी अत्र छट, १०२; निष
 १, ११; वा ४, १६१; १९६;
 -वीमिः वा ४, १९; -इया
 हिथी ४, २, ४०^०.
 वाशी-मत् - मन्तः वा ४, १९१;
 तेषा ३, ७.
 वाशुरा - पाठ १, ३८.
 ईवापद्^० आपथी २४, १४, ११; हिथी
 २१, २, ३७.
 वाष्क्य - वा, वाष्क्य - द.
 √वास्^३ > रवास्त^० -
 √वास् पाधा. जुटा. वर. उपमेवावाम्.
 ईवास - √वृ (वधा.) द.

a) = वलि-विशेष-। b) पृ २१५७ र द. c) वेष १ द.। d) द. पाणम.। e) पशरात्र-वेद-।
 f) = १वावाच - (त्र. वेष १)। g) √वास् इति [वषे] DPd.। h) वा ४, १९; ५, १ पराशयः द.।
 i) परस्परं वाधे.। j) रवास्तव - इति पाठा.। k) पृ १५६९ j द.। l) = कौषि-विशेष-। m) म्यव.।
 n) नाप. (वास्, वासि-). o) पमि. वेष १ वाश्या पे १६, ४२, ३ टि. द.। p) = वषद।

२वास- √वस् (आच्छादने) द
 ३वास- प्रथ √वस् (गन्धे) द
 धवास- २वसु- द
 धवास (>वासिल- पा) पाग ४, २,
 ८०

घासतीवर-, ०वार-, वासतेष-,
 वासतिश्वा √वस् (वधा) द
 १वासन- √वस् (आच्छादने) द
 २वासन- √वाम् द
 ३वासन- ने अण ७२, १, ६
 वासन्त- प्रथ वतन्त- द
 वासर^१ - पाठ ३, ११२, -रम् अण
 ४८ १११, निघ १ ११ -रथ
 वप्र २ ६, १, -राणि वा ४
 ७, १, -रेषु कौण ३, १ ९, काण
 ४, ७, ८

घातरूप^२ वा द
 १घासघ- १वसु- द
 २घासय->धेय- पा) पाग ४ २,
 ८०

घासवापनि- २वसु- द
 घासवी- १वसु द
 घासव्- प्रथ √वस् (आच्छादने) द
 घासा- पाठो २ ३, १६८ पाग ८
 २, १^३

घासातक- २वति- द
 घासात्य- १वति- द
 घासानक- २वसान- द
 घासि- पाठ ४ १२५

वासी^४ - पूर्या^५ आधो ७ १ ९
 कौश्री ४ ४ १०, भाषो ७, ७,
 ११ कौश्री १, ६, २, १

वासित- १वासिन्- √वस् (वधा) द

२वासिन्->वासिनायनि- पा ६, ४,
 १०४,

घासिनायन^६ - ना कौश्रीप्र १७
 २

घासिल- ५वत्- द
 घासिष्ठ- २वसिष्ठ- द
 घासिष्टायनि- ३वसिष्ठ- द
 घासिष्टीय- २वसिष्ठ- द
 वासु- पाठ १, १

वासुकि^७ - क्ये गोरु ४, ७, ३६, कौसू
 ७४, ८, कप्र २ ४, १ ५ -कि
 अण ३६ १, १०, -किम् शण
 ११६ २२

वासुक- वासुदेवक-, वासुमत-
 १वसु- द

वासुरा- पाठना १ ३८
 वासेनकी->वासेनकेव- पा) पाग
 ४ २ १७^८

वासोदक- √वस् (आच्छादने) द
 २वास्तव- √वस् (वधा) द
 ३वास्तव- ३व शण ११६ ५९^९
 वास्तवी-, १ २वास्तव्य- √वस्
 (वधा) द

३वास्तव्य- न्या कौश्रीप्र १५
 १.

१वास्तु- √वस् (वधा) द
 २वास्तु^{१०} ->वास्तु-मथ- यम्
 आधो २ १४, ११, मधो ९
 १६, १५ कौश्री २०, २२ ६,
 द्विती १५ ४, १९

२वास्तु^{११} - स्यात् कौश्री २४ ५
 १८

वास्तुक- पाठ ४ ४१

वास्त्येय- वस्ति- द
 वास्तोष्पति- प्रथ, १वास्त्य-,
 वास्त्य-, १वास्त्य- √वस्
 (वधा) द

२वास्त्य- √वस् (आच्छादने) द
 वाह-, १वाह- √वह द
 २वाह^{१२} ->वाह द्रोग- (>वाहि
 क-, वाहद्वैगिक- पा यक)
 पाग ५ १, २, ०^१

३वाह^{१३} ->वाह-कुम्भ-विभ-
 लुनि- ति अण २४, ३, १

वाहक- √वह द
 वाहकधि^{१४} - न्यय कौश्रीप्र ४५ ७
 वाहन-, विक-, वाहयिषा √वह^{१५}
 द

वाहलय^{१६} - न्या कौश्रीप्र १७ ७
 वाहस्- √वह द
 वाहस्- पाठ ३, ११९

१वाहानम् कौश्री १, ६, १, ७
 वाहायन- ३वह- द
 वाहि-, वाहिन्-, वाहि(व->)नी-
 √वह द

१वाहिरधरम् कौश्री ३, २ ७, १४
 वाहीक- पाठ ४, २५
 १वाहा- √वह द

२वाहा- ४वह- द
 ३वाहा^{१७} - ह्यम् कौण १, १ १४

वाहायनि- वहा- द
 वाहात्य- वाहास्वायन- वहास्व- द
 वाहायनि^{१८} - न्यय कौश्रीप्र ४३ ५
 वि^{१९} मा १, ३ श्रवा २२, २०, उषा ६
 २४, तैत्ति १, १७, पाग १ ४,
 ५८

a) वि, माय । b) वेग १ द । c) तु पागव । d) = २वासी- (तु वेग १) । e) धामे
 वेग १ वास्व पा १६ ४२ ३७ द । f) = शक्ति विशेष । g) = नाग विशेष । h) तु पावा । सतकी- इति
 भाषण । i) एषा शणु २१२, २४ अणुदानम् इति । j) = २वास्तु । k) = परिमाण विरेप
 (१ यथा प्रथ) । l) १ १३१४ b द । m) कर्षे स्यु व^२ । n) = पत्न्याम्-गण (तु माध्यम्) ।
 पाग वेग १ १४४-द ।

१वि- वे: शुवा ३,६६.
 २वि- पाठ ४,१३४; ऋचयः काशी ३, ६,५; आपथी ६, २२, १; १०, २७, १; १५, १७, १२××; वीथी; या २, ६६; ४, २६; वि: या २, ६६; विमि: प्राप्ता ४, ६२; विमि: श्रुते ४,१३६; वे: या ४,३; ६,२८.
 वि-प(द >)री- पाठ ५,४,११९.
 विशति- वाट्ट ५, ३९; वा ५, १, ५९; -तये वाथी ३,४,२, ७; -नि: शीथी ४, १५, १५; १९; १८,८,६; १०,४; आपथी; शेष ५३; विच २६, ५८; गौध २२, २६; काशु ७,२६; आपथु १७,८; वीथु १२,४; द्विथु ५,५०; वा ३, १०,६××; -विम गाथी १४,२, ४; ७; १८, ९, ३; काथी; -सी शीथी ८,३, १०; आपथी ६८,५, १६; -ते: अथ ४: ३; १८; २५, ३३; प्राप्ता; वा ६,४, १४२; -ती मीथु ८,१,१५; -त्या आथी ५, १८, ५; आपथी २, ११, २३; शमिथु २,१०, ५,५; वीथि; -त्या: वीथी २६, १०; ४; वीथु ४: १९; -त्याम् शीथी १४, ६१,६.
 १विम- -वा: मैत्र २६; -वाग् अथ ४१,५,७; आपथी २,६.
 विमि- -नी प्रथ २,८, २६; -वाम् वीथु १३८,१०.
 विरवा(सी-रवाप >)वा- -वा: प्रथ २,८,२६.
 १विम- -वाम् आपथु १८, ३; द्विथु ६,६; अथ ५२,३,५.

विम-वाव- -वाम् वीथु २१: १०.
 विमठ- वा ५, १, २४; -वी अथ ४: २.
 विमवि-क,का- वा ५,१,२४; -का: प्रथ १,१२,८; -काग् वा ५,१, ३२.
 वैमथिक- वा ५,१,२७.
 विमवि-सम- -वाम् विप ३,३०,६, २१.
 विमवि-दार- -व गाथी १,८,१, १८.
 विमवि-दी(धा >)क्ष- -क्ष काथी २३,२,१२.
 विमवि-पद- -दा गाथी १२,१७, ३.
 विमवि-पद- -शु: गाथी १६,१५, १७.
 विशकि-मार्ग- -गा: गौध १०,२५; २८,५.
 विमवि-वाप- -वा: वीथी १६,३३: ११; -वम् गाथी ११,२, १९; अथ १, ३३, ३; ६२, २, ६; -वाग् गाथी २४,२, १; शमिथु २, ७, १: २५; माथु ३, २०: ४; -थे गाथी १३, १६, ३; काथी २४,२,२; निम् २, ११: २४; -थेण आपथी २३,२,११; द्विथी १८,१,२४; वाप ४,२९; काथ २७३: ५.
 विमवि-वर्ष- -वै विप ३२,१३.
 विमवि-वात- -वाम् गाथी ११, १३,६; १४,९,८; ९; गाथी १०, ७, ११; शुम्; -वस्य गाथी १०,८,१; -ते गाथी ३१,१५.
 विमवि-तमा(त-म)हुल्- -त:

काशु ५,९.
 विमवि-समा- -मा: वेध १,३,३.
 १विमवि(ति-म)क्षर- -मिथु शुम् १, ४: ९,९: २०.
 २विमवि(ति-म)क्षर(>)गा- -रा निम् १,५: १३; -रा: निम् १, ३: २२; -राम् गाथी २, ६, १; वाधुथी ४,१००: ६.
 विमवि(ति-म)हुल्- हुल्म् वैथी ११,८: २.
 विमवि(ति-म)हुल्- विमवि- -वम् वैथी ११,९: २.
 विमवि(ति-म)हुल्- विमवि- (र-म)व(त >)वा- -ता वैथी ११,९: ७.
 विमवि(ति-म)दि- -वय: पाया ५, १,५९; -विमय: वा ५,२,५९; -विथु पाया २,२,२९
 विमवि(ति-म)व(त >)वा- -वामु वीथु ६५,४.
 विशिन्- -वा: ५,२,३७.
 विक- पाठमो २,२,५.
 विकर- (>वैमव- वा.)
 विकर- टि. द.
 विकृत- -वाप ४,२,८०: ३,१४१; -व: वीथी २,७: १७,१२: ४; द्विथी ३,१,१७; अथ २३,६,५; -वम् आपथी ५, २, ४; गाथी ५,५, १४; गाथी १,५,२, १८; वाथी १,४,२, ८; -वस्य द्विथी १, ४, ३८; ८, १, ३५; -वाग् द्विथी ३,३,३८.
 वैकृत- -वा ३, १४१; -व: वापथी ३, १००: ७; वीथु २, ६, ११; -वम् काथी ४,१४,७;

a) वेध १६. b) परस्परं पामे. c) वध. d) तद्विपथिकमिपथे व: प्र. (वा ५,२,४६). e) परस्परं पामे. f) वृणोमं वटि प्र. समग्रमयः (वा ५,२,५६). g) वृ. = विशिन्तम- h) मलो. कण. वा २१ वा (द्व. शमिथुवामी (गाथी)). i) मलो. कण. j) समग्रं दिग्. > वध. k) अथैः।

आपथी १२, १, १२; काठथी ११६; बौथी; -ता: भाथी १, ५, ७; वाधूथी ३, १००: ८; वैथी १३, ७: १५; -तान् आपथी १५, ५, ११; बौथी २, ५: ६; ६: ११; भाथी; -तानि काथी १, २, २२; आपथी १२, १, ५; १५, ५, ११; भाथी १, १७, १; ११, ५, १५; वैथी; -ते काथी १५, २, २; अथ २३, ४, ५; -नतेन कौत् ४८, ८; अथ ५, ८; अथ २: ४२; -ते आपथी १५, ८, १; बौथी ९, ७: १७; भाथी ११, ८, १; हिथी २४, ३, ३.
 वैकथी- -ती आपथी १, १५, १०; ६, ३, ६; काठथी ४, ७; भाथी १, १६, ५; माथी; -ती: बौथी २, ११, १४; ३०; ३६; २०: १; १४; बौथी; -तोभि: माथी ४, २, २३; -तीम् काथी १६, ४, १६; २६, १, ४; आपथी ५, १७, ५; १६, १, ७x४; बौथी; -थ: माथी ४, २, २; -था: माथी ४, १, ११.
 विकृत-सकल- -थान् काथी २६, २, १८; -थै: काथी २६, ३, १; ६, ११.
 विकृतिक- पा ४, २, ८०.
 विकृत(त-उ)दुग्ध-न्यग्रो-कृष्ण-काम्पै-नीतु-व-नोहितक (क-वा)दि- -दीनाम् वैथी ११, १०: १२.

विकृत-> (> वैक पा.) पाप ४, ३, १५०.
 विकच- -चा: अथ ५२, २, ४.
 विकट, टा- पा ५, २, २९; पाप ४, १, ४५; -टा: बौथी १५, ३७: २; या ६, ३०४; -टा वाशि २, ४९; -टाम् आपथ ३, ११; -टाय अथ ६६, ३, २१; -०टे या ६, ३०४.
 विकटी- पा ४, १, ४५.
 विकटा(ट आ)न(>)ता- -ना वाशि २, ४८.
 विकटो > विकटी-भूय माथी २, ५, ४, ५.
 विकण्टक- -का: अथ ६३, ५, ३.
 विकण्ट > विकण्ठि- पा ३, २, १४३.
 विकथा- पाप ४, ४, १०२; -थाम् आपथ १, १३, ७; हिथ १, ४, ११.
 वैकथिक- पा ४, ४, १०२.
 विकण्ठ, विकण्ठपति हिथी १, ७, ६५.
 विकण्ठ-> थै (> थै/कृ) विरसने टि. ६.
 विकण्ठित- -थम् शीच ३, ६५.
 विकण्ठ- -रा: विप ५, ८१.
 विकण्ठ- (> वैक- , वैक- यक. पा.) पाप ४, ३, ८६; २, ८०.
 विकण्ठ- वि/कृ द.
 विकण्ठ- प्र. वि/कृ द.
 विकण्ठ- -थम् आथी ८, ६, १६; ताथी १२, १, १४; बौथी १६,

१४: १७; भाथी २, ३, १, १५६; निम् ५, ५: १९; ९, १२: २०; -थैव काथी १२, १, १५.
 विकण्ठि, ता- -थी वैथी १२, ४: १८; हिथी १२, १, ४४; -थी: कौम् ४७, ४६१; -थीम् आपथी १७, ३, ९; ४, ७: १०, १; काथी १७, १२, २४; बौथी; -थै: बौथी १७, २४: ९; २५-२६: १२; -थाम् आपथी १७, ११, २; वैथी १२, ६: ३३.
 विकण्ठि-सकल- -थो काथी १७, १२, २४.
 विकण्ठि(ता-वा)दि- -दि काथी १७, ७, ११; २०.
 वैकण्ठ- पा ४, १, ११७; -थै: पाप १, ४, १५१; -था: बौथी ३: ९.
 वैकण्ठि- पाप २, ४, ६१; -थैव बौथी ४१: १७; ४६: १.
 वैकण्ठित- पा २, ४, ६१.
 वैकण्ठ- पा ४, १, १२४; -था: बौथी ४२: ८.
 विकण्ठ- , थैव- वि/कृ द.
 विकण्ठ- वि/कृ द.
 विकण्ठ- > थै-जीवन- -नम् विप ३७, ११०.
 विकण्ठ-थ- -था: विप ५४, २७; -थाम् वाप ११, १७; विप ८२, ४.
 विकण्ठ- प्र. वि/कृ द.
 विकण्ठ > विकण्ठि- (> थैव- पा.) पाप ५, २, ८८.

a) द. पापम. b) विप. (गद- [इदरपतिमुत-]) । वध. उप. अर्थ: १ । c) वैप १ द. । d) कर्मा-
 उषा- । e) विकण्ठहा- (क-पा-) । f) वध. । g) कर्म- (निघातरिषति-विशेष-) । h) वध. उप.
 = २२२- । i) अर्थ: १ । j) व्यप., नाप. (सामन्-) । k) विप. । अर्थ: १ (तत्र. आपथी १२, १, ११
 द्विपथि इति पात्रे.) । l) = १२४- । वैप १ द. । m) व्यप. (द. PW. प्र. ; वैप. जयराम: र्वाथे प्र. इति
 इत्या = वापु- [D. Old.]) । n) प्रात. । o) विकण्ठि जीवन् इति जीवै. ।

वि-कल, ला- पाग ४, १, ४१^३; -ले
 आज्यो ७, २०; १४, १; -ले
 आ ३६, ९, ३१^३.
 विकली- पा ४, १, ४१.
 वि-कलित- वि-कृ^३ द.
 वि-कल्प- प्रम्. वि-कृ^३ द.
 वि-कल्प^३- यस्य आपध १, २२,
 ४; द्विष १, ६, ४.
 वि-कस्त, वि-कस्ति कौम् १३६, १.
 वि-कसम्- सति कौम् ९३, ४३.
 वि-कसन->ने^३ (>ने^३कृ पा.)
 पाग १, ४, ७४.
 वि-कसित- सः या ४, ९; -तम्
 या १४, ३०.
 वि-कस्त- पा ७, २, ३४.
 वि-कसि- सतिः आपधौ २१,
 २५, ९.
 वि-कसिन्->सि-वस-सदश-
 -सः अप ७०^३, ४, २.
 वि-कसुद्- पा ५, ४, १४८.
 वि-कार->वैकारि^३ ->रि-मत-
 पाग २, २, ३१६.
 वि-कारत्य- प्रम्, रिन्- वि-कृ^३ द.
 वि-काल^३- ले आपधौ १०, ११, ६.
 वि-कास^३- (>वैकासेय- पा.) पाग
 ४, १, १२१.
 वि-कित् (ज्ञाने), वि-कित्ते आपधौ
 ३, ८, १.
 वि-कित्त आपधौ १४, २९, १;
 अप्राग ६, ३.

वि-कित्तस्त्- सन् वाधूरी ४,
 १०८: १६.
 वि-कित्ति- >त्सा(ला-प्र)र्धे-
 >र्थाप- सः या १, ४.
 वि-कित्तिस्त- सः वृदे २, १४९;
 १४४.
 वि-कित्-रि-रत्न-, रत्- वि-कृ^३
 (विशेषे) द.
 विकित्ति- -०द्र शुभा २, २०^३.
 वि-कीर्ण- प्रम्, कोर्धे वि-कृ^३
 (विशेषे) द.
 विकुक्षित^३- ले अप ५०, १, १.
 विकुघास^३- (>वैकुघासेय-)
 वि-कृ^३ द. > वि-कृ^३ द- सः या ६,
 ३०
 विकुघास^३- (>वैकुघासेय-)
 वि-कृ^३ द- > ल-पलात-
 -नामि अप ६८, १, २०.
 वि-कुण्ठ^३- >वैकुण्ठ^३- -०ण्ड
 विष ९८, ५९.
 वैकुण्ठ-सायुग्य- ज्यम् वेध १,
 ११, २.
 विकुण्ठा^३- ण्डा श्रम २, १०, ४७,
 वृदे ७, ४९.
 वैकुण्ठ^३- ण्डः साध १, ३१७;
 या ७, २; -ण्डम् ऋष २, १०,
 ४७; -ण्डस्य आपध १३: २.
 वि-कुर्वन्- वि-कृ^३ द.
 विकुल^३- लः आपध २, ७: २०^३.
 वि-कृ^३ द. > वि-कृ^३ द- सः या ५,

२६; -तम् या ६, २२.
 विकुलुक्^३- कः आपधौ १, २२;
 द्विधौ १५, १, ७१.
 विकुल- पाठ २, १५.
 वि-कृल^३- ले वाधूरी ४, १०: ३०.
 वि-कृल, वि-कृल्ले वाशि २, ६४^३; माम्
 ३, ५; विक्रोति तुम् ३, १४:
 १६; माम् ३, ७; विकृयन्ति माम्
 २, १८; विकृपादं निम् ४, १:
 १०; १२; १३; १५.
 विचकार वाधौ १, ५, १, १^३.
 विक्रियते आपधौ ३, १६, ११;
 ७, २७, ६; ८, ८, २१; १९, ९;
 २१, १; वीडु ६: १३; माम्.
 वि-कारयेत् प्रा १, १०, १^३.
 वि-करण^३- ज्येष्ठयः पावा ६, १,
 १८.
 वि-करण(ण-प्र)भाप- सः पावा
 ३, १, ६७.
 विकरण(ण-अ)र्धे- र्धाः पावा
 ३, १, ६७.
 वि-कर्तृ^३- तारम् पाग ३, ४, ८^३;
 -त्रै वीग ३, १, ५^३.
 र-वि-कार- पाग ६, २, १६०; -र
 आपधौ ३, ६, ७; तार्धौ १, १५,
 ६, २, ६, ८××; आपधौ; मीम् ५,
 २, २^३; -रम् तार्धौ ९, १, २, २०,
 ४; आपधौ २४, १, १४; निम्
 १, १३: २३; अप; -रस्य तैसा
 १, २६; मीम् ७, २, ११; ९, २.

a) = वनस्पति-विशेष- इति पागम. । b) = देवी- । c) बस. । d) च्चगमे इति पावा. । e) अप. ।
 f) अपत्यार्थे हृन् प्र. इति पागम. । g) वैकारिमत-नामवाच्यम् इति शास्त्रायनः (द्व. पागम.) । h) प्रास. ।
 i) वि-कंसा- इति [पक्षे] भाष्यज. । j) वेप इ. द. । k) विप. (सर्वप्रतिविम्ब-) । l) वृ ८९० वृ द ।
 m) = विष्णु- । बस. । n) स्वार्थे ञ् प्र. । मत्वर्थे प्र. इति [पक्षे] बभा., < विकुण्ठा- इति एक. मन्दापरित्यक्त ।
 o) अफये ऋन् प्र. (पा ४, १, ११२) । p) = बालमहविशेष- । q) सवा. आपधं २, १६, ८ द्विष २, ७, २
 विकृलः इति पागे. । r) नाप. (कति-) । s) विप. > नाप (स्थान- प्रवण-) । बस. । t) धा. वैविधे इतिः ।
 u) सवा मे १, ७, १ विचकर इति पागे । v) = पारिभाषिक-संज्ञा- । w) = [उपनाराज] देवता- ।
 x) = [प्रकरणात्] आश्रित- (द्व. भाष्यम्) ।

१५; -राः आश्री ९, १, १३;
 ७, १९; आपश्री १४, १, ४; १९,
 १४, ४; द्विश्रीः -रात् निम्
 ८, १३; ३०; मीम् ९, ४,
 १; १२, १, ४; -रात् शोभी १,
 १६, ११; माथौ ५, १७, ३; ८, ४,
 ३; २३, ३; माथौ; -रे आश्री
 २, १, ३४; वा १, १३; २, १; अश्रा
 ३, २, २२; पा ४, ३, १३४; पाषा;
 मीम् १०, ४, २०^३; ८, १८^३;
 -रेण वा २, १; -रेषु आश्री ७,
 २७, २; -रैः अप ६३, २, १;
 विष ८०, १२.
 वैकारिक- कम् शंघ ८३;
 -के द्विश्री ८, ४, ४.
 विकार- रस्व पावा २, ४,
 ८५; ३, १, ८३.
 विहार-स्व- स्वम् मीम् १०, १,
 ३१; -स्वान् मीम् ४, ३, ३.
 विकार-निर्देश- -राः पावा १,
 २, २७.
 विकार-पृथक्त्व- -न्यात् मीम्
 ७, २, १६.
 विहार-लोप- -सौ तैत्रा १, ५६.
 विकार-वचना(ल-आ)नर्थव्य-
 -न्यात् पावा २, ४, ३२.
 विकार-शास्त्र- -स्त्रम् श्रावा २, ५.
 विकार-ध्वज- -गान् आपशु
 २३, ६; द्विशु ६, ६५.
 विकार-स्वभाव- -गम् निम् २,
 ८ : ९; -नै मीम् ११, ३, ५०.
 विकार-धुलामुलावकथन-
 -न्यानि कौम् ११, ८.
 विकार(र-आ)गम- -मेषु पावा
 ३, १, १.

विकारा(र-आ)धे- -धैम् निम्
 ४, १ : ११; पावा ५, १, ६७.
 विकारा(र-आ)वयव- -वयोः
 पावा ४, ३, १३३; १५३.
 विकारावयव-युक्तत्व- -स्वान्
 पावा ४, ३, १५३.
 विकारावयव शब्द- -ब्दात्
 पावा ४, ३, १५३.
 विकारिन्- -रि विध ९६, ४८;
 -रिणः अप ६८, १, ४३; -री
 श्रावा १, १४२.
 विकारिन्- -र्वन् आपश्री १७, १३,
 २; द्विश्री १२, ४, ४; कौम् १२४, २
 विकृत- -तः शोभी २, ५, १०;
 माथौ २, ४, २, ३२; ४२; ४, २२;
 २६; २९××; निम्; -तम् वीथौ
 २६, २४ : १७; पाश २, ७, १७;
 अप ७०^३, ६, ३; १०, ५××;
 शंघ; -तस्व पावा ८, ४, १५;
 -ताः अप ७२, ३, ६; आपघ
 १, १७, ३९; द्विष १, ५, ७०;
 -तात् पावा २, ३, २०; -तान्
 शोभी १५, १५, १०; -तानान्
 अप ६८, २, ४७, -तानि आश्री
 ८, २, २; अप ७०^३, ७, १९;
 ७१, ४, ४××; शंघ; -ते कौम्
 १९, २१; २५, ३२××; अप
 ७०^३, ६, ४; तैत्रा; मीम् १०,
 ७, ६४^३; -तेन वैताथौ ३०,
 ६; -तेभ्यः वैथौ २१, १० : ८.
 विकृत-जगम- -रम् अप ७०^३,
 ११, १४.
 विकृत-जपोतिष्क- -ष्कः वा ५,
 २०.
 विकृत-त(स>)मा- -मा निम्

२, ८ : १७.
 विकृत-नम्र-मुण्ड-वण्ड^१ -ण्डः
 अप १, ३२, ५.
 विकृत-रूप- -ये वीथु ४, ९,
 १०.
 विकृत-रूप^२ - -याः वाध १४,
 ४२.
 विकृत-शब्द- -ब्दे वीथु ४, ९,
 १०.
 विकृत-स्वा- > शो(र-उ)प
 (धा>)ष^३ - -षे तत्रा ११, ४८.
 विकृत-स्व(र>)रा^४ - -रा अप
 ६४, २, ६.
 विकृत(त-आ)क्ष- -क्षः पावा ६,
 ३, ३.
 विकृता(त-अ)ज्ञ^५ - -ज्ञः अप
 ६९, ३, २; -ज्ञाः अप ७१, १९,
 ४.
 विकृता(त-आ)मन्^६ - -मानः
 अप ७१, ४, २.
 विकृता-रम-क- -काः अप
 ७१, २, ३; ५, ४; ८, ४.
 विकृता(त-आ)दि- -दी श्रावा
 १०, ७.
 विकृता(त-आ)दभुत-दशोभ^७-
 -तम् अप ६४, ८, ९.
 विकृता(त-आ)हार- -रम्
 आपशु ३, ४, ४ : २९; ११,
 १ : ८.
 विकृति(वप्रा.)- -तयः वा २, २६;
 -तिः आश्री ६, १६, १^८, अप
 ७७, २, ६; ६७, २, २; श्रा
 ४, १८७^३; अप ३, १^९; १३;
 ३^१; तत्रा १६, ८९^३, ९३; पावा
 २, १, ३६; वनित २ : १८^३,

a) विकारः इति लोभं., अविकारे इति पञ्चतानन्दः। b) छ. जीवैः। c) शो इति जीर्ण. प्रथमं.।
 d) द्रव. > मसो. पस.। e) वस.। f) द्रव. > पस.। g) = [पायुज-] पायम्.। h) = विकृति-व्याप-।
 i) = उन्ने-विकेप-।

वि ७, ३^०, मीय ५, १, ११^०,
 -ती अय १३, ३^०, -ते भाषी
 ६, १६, २^०, हिथी ३, ८, ३८^०,
 पा ५ १, १२, मीय ५, ४, २२^०,
 -ती आषी ७, १, ११^०, काश्री
 १, ५, ४^०, १०, ३, १०, आषी
 २७, ३, ५०^०, ४, ११, हिथी,
 -त्या काश्री १६, ५ ९, पाय १,
 १४, ५^०, अय ७२, ३, १३
 वैकृत- -त मीय १२, ३,
 १०, -तम् भाषी ६, १५, ७,
 अय ६७, ३, २, ७, १, मैय २,
 मीय ५ १, २७, -ता अय ४७
 १, १, -तानाम् आषी ६, १६,
 -तानि हिथी १६, ७, ८, -ते
 अय ७०^०, ६, ३, -ते हिथी १६,
 ७, ८, मीय १०, ३, ११.
 वैकृती- -ती आषी
 ७, १०, १, -तीम्. भाषी ९,
 ६, ३, भाषी ५ १, १०, ५५
 वैकृत-त्व- -त्वम् मीय
 १०, ५, २४, -त्या आषी १०,
 ४, २
 वैकृत- -त्ये अय ७०^०,
 १३, ५
 वैकृत्यो(ति-उ)द्वैत-
 नानि अय ६७, ६, ४
 विद्वति-द्वैत- -ताम् आषी ३,
 ५१
 विद्विपनाय- -ते आषी ९, ६,
 २०
 वैद्वत्(विद्वे) (वि)द्वन्त्य वृदे ६,

८२१, विद्वन्त्ये भाषी ५ १,
 १०, ५१
 वि...कृणन्ति वीथी ७, ६ ५७,
 वि कर्त्त- > वैकर्त्त- -तैर्य आषी
 १२, ९, १२^०
 विकर्त्त- -न्त् या २, २२, -नात्
 शीथी ७, १९, ७, या ५, २१, ६,
 २६, -ते भाषी ६, १, ७, २७,
 -नेन या २, २२
 विद्वन्त-द(न्त)णी- -ती
 या ६, ३०
 विकृत- -तात् या ६ ११, -तानि
 भाषी ७, २१, ११
 विकृत्य वीथी १५, ३१ २४, या
 १०, १२^०
 विकृत्यमा(न्)ता- -ना अय
 १२, ५ (४)^०
 विद्वत्- -विद्वति- प्रयु वि √कृ द
 वि √कृ, विकर्षति काश्री १६ ८,
 १५, आषी १७, १२, ७, वीथी
 १०, ४८ २४, ४९ ०, भाषी
 ६, २, ४, ११^०, वैथी १९, ६
 ५५, ५७, हिथी १२, ४, १,
 विकर्षन्ते वीथी १७ ३ १२,
 विकर्षन्ते वीथी २०, १४ १०,
 २२ ९ १५
 वृविकृत्यन्तु आषी २ २०, ४^०
 वि अकृषया वाम्थी ३, ४१
 ८
 विकर्षयति या १७ ३१
 विकर्षे- -पाय ५ १ ६४, तैमा ११,
 ३^०, -र्वी गोय १ ५७, या ३

९, -र्वेण^० शंथी १३ १, ७, निम्
 १, १ १८, वृदे ८, १२०, आषी
 १७, ४७.
 वैकर्षिक- -पा ५, १, ६४
 विकर्षण- -नात् वीथी २५, ३०
 १६, भाषी ६ १, ४, १२, वाथी
 २ २, ३, १९, -ते वीथी २२,
 ९ १५
 वैकर्षण- -नात् वाथी २, १, ५,
 ७^०
 वि कर्षत्- -र्षन् आषी १७, १२,
 ८, वैथी १९, ६ ५७
 वि-कर्षिन्- -र्विणा अय ५८^०, १, ९
 विकृत- -हम् वाम्थी ३, ४६ ६
 विकृत वाम- -ती वीथी २६,
 २३ ७
 विकृत-वेह- -हा या १०, २२
 विकृत्यमा(न्)ता- -नाम्
 वैताथी २९ १३
 विकृत्य- -क्षसु आषी १७, ४,
 ४, लाथी ५ ८, ४
 वि √कृ (विसेषे), विक्रिषति वैद ७,
 २ ९, विक्रिषति अय ५८^०,
 २, ९, विक्रिषन्त वीथ १, ३,
 वैद ७, ४ १७, गोय १५, २६
 विक्र- -रम् वीथि २, ४, १८
 विक्रि- -र अषी ९ ३,
 २२^०, हिथी १५ १, ७१^०,
 पा ६, १, १५०^०, पाया ६, १,
 १४६^०, -रानाम् आषय १ १७,
 ३२^०, हिथ १ ५ ६३^०, -राम्
 आषी २०, १४, ५^०

a) = छ दो विशेष । b) = विद्वति-आय- । c) नाप । दर्दरि कृत् । d) स्तार्थे अण प्र । e) पय ।
 f) कृष्ण इति पाठ ? यन्नि सोष (द्व औ १२, ५, २८) । g) रुपा वाथी २ २, ३, १७ परिकर्षति इति पाठे ।
 h) पाठे वैप १ विकृत्यन्तु टि द । i) अन्तम् वृज्यम् (ते ७, ९, १) इत्यदिप्यानुवाक-शशा । j) = दृता- ।
 k) = वृषाभाव । l) गाने कर्त्तृत्वं च प्र । m) अय आषी १६, १९, ८ कलीवर्दान् इति पाठे । n) = रविद्वि- ।
 o) वय वमोष अण प्र । o) कर्त्तृत्वं च प्र. (या ३, १, १३५) । p) = अन्नि विशेष । q) पाठे वैप १, १८ १८ d
 द । r) = पक्षिन् । s) मा २७, २० प्रयु विकृषात् इति, अठ ५०, ४ विकरम् इति च पाठे ।

रवि-किर^१ - र विघ ८१, २२,
-रम् शप ४४, ४, ३, वाष ११,
२४, राष १९५

वि क्रिगण- गम् विघ ७३, २३^b

वि क्रिस्- र्म् विघ ८१ २१

वि कीर्ण- > षे उत्- र्म् या ८९

विकीर्ण मात्रा^c - रा या ११,
१२

विकीर्ण रश्मि^d - रमय शप
५२, ४, १

वि कीर्ण वैशु ५, ३ १३ x x, गौपि

वि ✓कलृप्, विकल्पते द्विधौ ९८, ५,
शाशौ ४, ६, २३, वृदे २, १५१,
विकल्पते लाशौ ६, १२, १४^e,
१०, ५, १८, विकल्पते आपशौ

५ २०, १४, १२, २७, १५ १४,
५, १, गौशौ, विकल्पेत् आपशौ

९ १३ ७, १५, १८, १९, द्विधौ,
मीस् १२ ३, १०, १३ ३, ३६

विकल्पयति क्षुस् ३, १० २४,
११ २८, विकल्पयति निस्

५, ७ २१, ण्यवक्ष्यन् कोट
१, १२ ६, शण्ड १, १९, ६,

विकल्पयेत् क्षुस् ३, ४, १४

वि-कल्प- -त्प आशौ १, १३, ५,
२, २, १३, ३, २, १४, शाशौ,

-त्पस्य मीस् १०, ८, ४, १६,
-त्वा लाशौ ७, १०, १३, ८,
१२, ५ ९, ११, ५ जैष्ट १, १७

१, द्राघ, -त्वे काशौ १, ४, १४;
द्विधौ ३, १, १४, गौपि १, ९

११^f, मीष्ट ६, ३, २८ x x,
-त्पम आशिष्ट ३, १०, ४, २९,
वाष २२, १४, गौष १९, १९,

मीस् १०, ५, ५९

वैकल्पिक- क माशौ ४, २,
२८, -कानि शाशौ २, १, २७,
७, १, १७

विकल्प भूत्- लौ शाशौ १, १६,
१४

विकल्प वत् मीस् १२, ३, १४

विकल्पा(त्वा अ)र्था, र्था- र्थं
वैशौ १९, ५ ९, द्विधौ ७, ३,
७०, -र्थम् वैशौ १३ १२ ११,
-र्था आपशौ १९, १८, ११, २१,
१३, १३, २४, ४, १३, द्विधौ १,
२, ३, ७, ४९ x x, माशि २, ५७

-र्थाभि वैशौ १, ९ १०, द्विधौ
३, ३, ३३

वि-व्यययत्- यन् निस् ५, ७ २२,
२४, -यन्त निस् ५, ७ २३^g

वि-कविप्- -व्यो वाष ३, २०,
गौष १, १, ८

वि-कल्प- -ल्प्य लाशौ ४, ७, ९

वि-केश^h - शान् आपम २, १३,
१२, आशिष्ट २, १, ३ २१,
भाष्ट १, २३ १३, द्विष्ट

वि-केशीⁱ - शी^j श्वप १, ४, ९,
आशिष्ट १, ५, २ ५४, वाष्ट,
कौस् १२६, ९

वि-केशर^k - रा शप ५२, ५, ५

वि-कश्यत्- वि ✓कृ^l इ

वि ✓कृ^m, विवमते आशिष्ट १, ६,
३ ३३, वा १२, १९, विक्रामति
शाशौ ४, १२, ५, विवमते वैशौ
३, २१ २१ⁿ, ण्विक्रमत्त्व
आशौ ५, १९, ३, ८, १२, ७,
शाशौ ८, ४, ३, शाशौ, क्षुप्रा

६, ८, वि क्रमस्व वाधुशौ
३, ५२ : २^o, ण्यकामत्
आपशौ ५ १८, २, वैशौ १, ८
८, द्विधौ ६, ५, १६, व्यकमया
वाधुशौ ३, ५३ १^p
ण्विक्रमे आशौ १, ६, १, ३ ८,
१, १०, १४, ४, ५, ३, ८, ८,
आपशौ, या १२, १९, ६, विवकस्तु
काष्ट ३, ५^q, ण्यकस्त^r शाशौ
४, १२, २-५, माशौ १, ४, ३,
११^s, वाशौ १, १, ४, २२^t,
ण्वि 'मकंसव आशौ ८, ३,
२३, वाशौ १२ २३, ४, वैशाशौ
३२, २६
विवमवति काशौ १५ ६, ९,
माशौ ४, ४, १८, वैशौ ११ २४
वि-कम(वरा) - म तैषा १२, १,
माशि ५ ८^u, कौशि २८, -मम्
क्षप्रा १३, ३०^v, उम् ८, १९^w,
-मा कौशि २६, २९, ३३,
-मेषु कौशि २९ - लौ वाशौ
१९, ५, १५^x

वि क्रमण- गम् वाशौ ३, १, १,
३१^y, वैशौवा १६३, क्षप्रा १४,
५८, -ण्वेषु आपशौ ११, १, ३,
द्विधौ ७ ५ ३५
वि-कम्य शाशौ १, ४, ३, आपशौ
विक्रम्यऽविमम्य वाधुशौ २
११ ४

वि क्रान्त- म्त् म् क्षप्रा ४, ३५, ७८,
-म्त् ण्वौशौ १०, ५९ १^z,
११, ७ २५ x x, वाधुशौ, -न्तेषु
वाधुशौ ४, ३२ १
विक्रान्त वति^{aa} - वि या ६ ३०

वि-काम- क माशौ ४, २,
२८, -कानि शाशौ २, १, २७,
७, १, १७

वि-व्यययत्- यन् निस् ५, ७ २२,
२४, -यन्त निस् ५, ७ २३^g

वि-कविप्- -व्यो वाष ३, २०,
गौष १, १, ८

वि-कल्प- -ल्प्य लाशौ ४, ७, ९

वि-केश^h - शान् आपम २, १३,
१२, आशिष्ट २, १, ३ २१,
भाष्ट १, २३ १३, द्विष्ट

वि-केशीⁱ - शी^j श्वप १, ४, ९,
आशिष्ट १, ५, २ ५४, वाष्ट,
कौस् १२६, ९

वि-केशर^k - रा शप ५२, ५, ५

वि-कश्यत्- वि ✓कृ^l इ

वि ✓कृ^m, विवमते आशिष्ट १, ६,
३ ३३, वा १२, १९, विक्रामति
शाशौ ४, १२, ५, विवमते वैशौ
३, २१ २१ⁿ, ण्विक्रमत्त्व
आशौ ५, १९, ३, ८, १२, ७,
शाशौ ८, ४, ३, शाशौ, क्षुप्रा

६, ८, वि क्रमस्व वाधुशौ
३, ५२ : २^o, ण्यकामत्
आपशौ ५ १८, २, वैशौ १, ८
८, द्विधौ ६, ५, १६, व्यकमया
वाधुशौ ३, ५३ १^p
ण्विक्रमे आशौ १, ६, १, ३ ८,
१, १०, १४, ४, ५, ३, ८, ८,
आपशौ, या १२, १९, ६, विवकस्तु
काष्ट ३, ५^q, ण्यकस्त^r शाशौ
४, १२, २-५, माशौ १, ४, ३,
११^s, वाशौ १, १, ४, २२^t,
ण्वि 'मकंसव आशौ ८, ३,
२३, वाशौ १२ २३, ४, वैशाशौ
३२, २६
विवमवति काशौ १५ ६, ९,
माशौ ४, ४, १८, वैशौ ११ २४
वि-कम(वरा) - म तैषा १२, १,
माशि ५ ८^u, कौशि २८, -मम्
क्षप्रा १३, ३०^v, उम् ८, १९^w,
-मा कौशि २६, २९, ३३,
-मेषु कौशि २९ - लौ वाशौ
१९, ५, १५^x

वि क्रमण- गम् वाशौ ३, १, १,
३१^y, वैशौवा १६३, क्षप्रा १४,
५८, -ण्वेषु आपशौ ११, १, ३,
द्विधौ ७ ५ ३५
वि-कम्य शाशौ १, ४, ३, आपशौ
विक्रम्यऽविमम्य वाधुशौ २
११ ४

वि क्रान्त- म्त् म् क्षप्रा ४, ३५, ७८,
-म्त् ण्वौशौ १०, ५९ १^z,
११, ७ २५ x x, वाधुशौ, -न्तेषु
वाधुशौ ४, ३२ १
विक्रान्त वति^{aa} - वि या ६ ३०

a) भाग, वाष (द्विधौ विरोध-) क्रम)। भाषि कर्मणि च क प्र (वावा वे, ३, ५८)। b) विकल्पय
रि कीर्ण। c) षष् । d) षष् । e) वैष १६ । f) पाषि वैष १ विके-पे वि २, ११, ३ टि ६ ।
g) वा १, २, ४१ पराण्ड इ । h) परत्प पाषे । i) = ऋद्राग-विशेष-। ऋद्रागभावविशेष उल (वा ७, २,
१४)। j) षट् उतोष संविद्यार्थं । k) विकर्तनीय संज्ञा-। l) = प्रक्रम-। m) = यधि-विशेष ।

विशाले-उपोतिष्- -व्यः या ५, २०. विक्रान्त-द्वीप- -नः या ६, ३०. वि-काम- -मेव वीथी २, १२ : २३; द्विथी ३, ३, १०. वि-क्रम- वि/क्रम द. वि-क्रम- -नः तेषां २४, ५. वि-क्रिय- -वस्य जैथी २ : १७. वि-क्रियमाण- वि/क्रु द. वि/क्षी, विक्रीणीते वीथ २, १, ५३ ^१ ; ५४; विक्रीणाति माथी १०, १३, ७; वैष ३, १४, ३ ^० ; विक्रीणताम् विष ५, १२६; विक्रीणावहै माथी २, १८, १३; वीथी ५, १० : २२; विक्रीणीत गोथ १, ५, २४; विक्रीणीयात् वाथ १, २३; प्रापथ १, २०, १३; द्विष १, ६, २७; विक्रीणीस्त् वाथ २, ३१. वि-कष- -व्यम् संघ ४०५; -वेपु आमिथ २, ७, ७ : ३; -वैः विष ५८, १०. वि-कषिक- पा ४, ४, १३. वि-कषिक- पाठ २, ४४. वि-कषिष्- -विणे कार्यो ७, ७, १९; -सो कार्यो ६, ७, ४; ७, ६, २; वैथी १२, १५ : ३×४; विष ५, १७४; वैष ३, १४, ५; वीथ ३, ७, ११. वि-क्रीणात्- -गतः विष ५, १३०; -व्य् वृदे ४, १३३.	वि-क्रीय भाति १२१. वि-क्रेण- -ता संघ ४०५; विष ५, १६६; आज्जो ५, १०. वि-क्रेय- -व्यम् वीथ २, १, ५५; -वस्य विष ५, १७४. वि/कुशु>वि-मुष्ट- -ष्टम् भाति १६, १३; भाति २, ८४; नाधि १, ३, १, ६ ^१ ; १३. वि-क्रोदान- -नः सु २३, ४. वि-क्रोदायिष्- -न्य या २, २५. वि-क्रोघ- -घः प्रापथ २३, २. वि/क्षिद्>वि-क्षिति- -त्तेः पादा १, ४, २३. वि-क्षिप्- -व्यः शोथी १६, १८, १८ ^१ ; वीथी १५, २७ : १; १८, १ : ५ ^१ ; वापूथी ३, १९ : ३; भाति ४८ ^१ ; -घम् आपथी २०, २२, ६; द्विथी १४, ५, ४; -वस्य वाथी ३, ४, ५, १७; भाति ४८ ^१ ; -घाम वापूथी ३, १९ : ६. वि/क्षिष्>वि-क्षिष्म भाति १२, ५. वि-क्षिष्ट- -ष्टम् श्रापा १४, ७. वि-क्षेप्त- -ताः श्रापा १४, २५. वि-क्षी (> वि-क्षी/क्ष पा.) पाग १, ४, ६१. वि-क्षणा->ण-व- -वस्य भाति ३३, ७. वि/क्षर, विक्षरति शोथी १८, २२, ७.	वि-क्षारपति वाथी १, ७, २, ४१; ७८; ३, २, ७, ५१; वि-क्षारदेव वाथी ३, २, ७, ७६. वि-क्षरत्- -स्तम् आपथी १५, १०, १३; वाथीसं ३६ : १६; माथी ११, १०, १४; वैथी; द्विषि १४ : ९. वि/क्षरु>वि-क्षारम् वीथी ७, ६; १५; ८, १ : १९; ९ : ११. वि-क्षार->वैष- (पा.) पाग ४, ४, ६२. वि-क्षाम- वि/क्षी द. वि-क्षाय- वि/क्षु द. वि/क्षिष्, विक्षिपति आपथी २, ८, ५; ३, ६, ८; वीथ १९, १८; विक्षिपते मय ७० ^१ , ८, ४. वि-क्षिप्य वैष १, ३ : १६. वि-क्षि (>) पा- -०१दे माथी ४, ६, १३. वि/क्षु>वि-क्षाष- पा ३, ३, २५. वि/क्षे>वि-क्षाम- -माणि शोथी ४, १२, १; -मे अत्राय ४, १. वि/क्षमायु>वि-क्षमाय (>)- -त्तो- -न्ती या १०, ७. वि/क्षन्, विक्षनति वीथ ४६, ५१; १३७, १२. वि-क्षन्- -मात् या ३, १७. वि-क्षनस्- -नाः वीथी २१, १८०; वैष २, ५, ९, ३, १५, १३; ४, ८, १३. वि/क्षारु>वि-क्षार- -वः मय ४८, १०५; विष २, १७.
--	---	---

c) वस. । d) = प्रमाण-विशेष- । e) वि-कष- (< वि/क्षी) इति संस्कृतः शोचः । d) पा १, ३, १८ परामुष्टः द. । e) विक्रीणीत इति ०. । f) वैषु. पा ३, २, ९३ सोपपददेवैति । g) = (उपदेश-चरणे) शी-विशेष- । h) = प्राणि-विशेष- । i) वैष २, २४. द. । j) = इक्षिष् इति ०. माथं य. । k) विषन् इति पाठः ? वनि. शोचः (तु. तेषां ३, ९, १५, ३ तेषां १, २, ३) । l) = वर्षाशेष-विशेष- । m) विशारे स्वयं. । द्विषाणाम् इति वामनः, विकारे इत्यपरः (तु. पागम.) । n) विक्षि इति मूले. । o) < विक्षु इति पागम. । वीथी- (< वि/क्षु इति [पक्षे] मय. प्रस. । p) = आपथि-वर्षा- । व्यु ! । सप्त. वै ४, ९, १७ विक्षिपेत् इति वामं. (तु. संस्कृतः द्वि.) । q) = आपथि-विशेष- । व्यु. ! < वि/क्षन् इति मय. । r) वैष १६. । पैप-२-११

वि-सुर- नम् हिष्ट २, ३, ७†^०.
 वि-ख्य- पावा ५, ४, ११९.
 वि-ख्या, पञ्चव्यत् शोभो ९, २८,
 १०; कात् ५५, ३; ७१, १८; शुभ्र
 ४, १४; पवि-अख्यत् आश्री
 ४, ७, ४; शोभो; या १२, १३;
 वि(अख्यत्), वि(अख्यत्) वैष्ट २,
 ७: २†; वि(अख्यत्) अश्व २,
 १, १०९†.
 व्यक्षिपयत् या १२, १३.
 वि-ख्याप्य बौध ४, १, २२; गौध.
 वि-ख्याय बौधो १०, २: १९†.
 वि-गये पा ३, ४, ११.
 विगण- गाम् बौधो १८, २४:
 २०.
 विगहक- का: बौधो १४: १.
 वि-गाम्, वि-गामत् अण ४४, ४,
 १०; विप ७३, २८.
 विगत- > त-कलमप- नम् अण
 ७०, १, ७.
 विगत-नवच्- नवचम् वैधो १,
 १: १५.
 विगत-मात्- रा: बौध १,
 १, ५.
 विगत-स्नेह- हे अण ६३, २, २.
 विगत(त-अ)निल-न्वे(डा >)
 ए- एम् वैष्ट ५, २: १.
 विगता(त-अ)शेष-कलमप-
 -नम् विप १, ३६.
 वि-ग(भं)भा- मांम् बौधो
 २२, ३: २६.
 वि-गह- विगर्हित, ता- वा: अण
 ५८, १, ६; वेष्टु माण्यो ७, ७.

विगर्ह- (> विगर्हि (>)णी- पा.)
 पाण ५, २, १३५.
 पवि-गा, विगमात् भाश्री ६, ४, २;
 हिश्री ६, ६, १९; पाण २, १६,
 १०; विगात् आपश्री ६, ६, ८;
 १४, २०, ७; बौधो १४, ५: ३५;
 २०, २०: ३५.
 वि-गाह, विगहते आश्री ५, १२,
 १५†; आपश्री १६, ११, १२†;
 वैधो १२, ६: ११; १८, १०:
 ५†; हिश्री २२, ४, १२†;
 पविगाहयः शाश्री १२, १५, १.
 पवि-गह- नम् आपश्री ५, १०,
 ४; शाश्री १, ५, २, १४; शाश्री
 १, ४, २, ५; हिश्री ३, ३, ३६.
 वि-गाह वैधो १६, २४: १४; वैष्ट
 १, ३: ५.
 वि-गुण- गाम् अण ७०, १२, ३; -जे
 काश्री १, २, १८.
 वैगुण्य- पयम् आश्री १२, ४, १४;
 -व्यात् नीम् ५, १, ३०; ६, १,
 ३०; ४, ११; ५, २३; ६, १;
 १२, ०, १८.
 वि-गुल्क- न्कम् आश्री १२, ८, ३५;
 आश्री ४, १, १७†.
 वि-गृह, गृह, विगृहाति काश्री ७,
 ६, ५; ९, १४, ८; १०, ३, २१;
 २०, ४, २८; आपश्री १४, १, ८;
 २४, ११, ८; वाश्री; व्यगृहात्
 वाश्री ४, ८३: ४; विगृहीयात्
 काश्री २५, १३, १; बौधो २१,
 १: १; २४, २३: १०××;
 शैधि ५३; ५८.

विगृहते शाश्री २, ५, ३, १; अप्रा
 २, १, १०; १२; १३; ३, १, ५;
 विगृहन्ते बौधो २६, १: ११.
 पवि-गृहीत- न्वा: आपश्री १६, २९,
 १; वैधो १८, २०: १; हिश्री;
 -वात् पावा ४, २, ९३; ५, १,
 १०३.
 वि-गृह शाश्री १०, ८, ११; १३, २;
 ८; काश्री ३०: ७; आपश्री.
 वि-गृह- ह्यात् शौच ४, ७८.
 वि-गृह(वप्रा)- -हा: आश्री ८,
 १, १०†; ३, १२; १२, १६;
 काश्री ९, १४, १३†; अण ५३, ६,
 २०; ६४, ७, ५; अप्रा १, १,
 १०××; शौच ४, ३; पावा
 १, २, ६४†; -हम् वाश्री
 ३, २, ५, ५७; अण ५१, १,
 ४०; ६३, ३, २०; बौध ४, ७, ३†;
 -हात् वृद्धे २, १०-६†; पावा १,
 २, १८†; -हे अण ३३, २, ४†;
 अण ४, ४२; ५, २२; ५६, ७,
 ६; ८, १; अत ३, ८, २; पावा
 २, २, २९†; -हेण वृद्धे २, ११†;
 वा १, ४; पावा ३, १, २९.
 विगृह- हात् पावा ३, १,
 १३१.
 विगृह-दर्शन- नात् पावा ५, १,
 ६७.
 विगृह(ह-आ)दित्वागृह-प्रति-
 पेध- भात् काश्री १२, ५, १८.
 विगृह(ह-अ)भाव- वात् पावा
 ५, ४, ७.
 वि-गृह आश्री ५, ९, २०; ८, ३, ८;

a) रुयः व्यु. वा। b) सण. आपश्री २, १४, १ माण १, २३: १६ शिवपुरम् इति पाठि। c) बल. उण.
 <वाविघ-। d) = सावि-विशेष-। e) माण्योणे अभाषयः! (तु. वा. शौचि २, ५, १२ व्यपरात् इति पाठि.)।
 f) बल.। g) वण. > वण.। h) = मयर्हना-। i) पाठि. शेष २ विगृहते मे ४, १२, ५ टि. र.।
 j) उण. शौचि ह्य.। k) = प्रभु- (तु. वि-पत्तक-)। व्यु. ?। l) ओतं. हिद्यु इति पाठभ्रंशः।
 m) माण., माण.। n) = वि-नाम-। o) = युद्ध-। p) = [शृयर्थांशोपध-] वाक्य-। q) = शरीर-।

भाषी १८, ५, १६, आपथी,
विमाहाश्मू वीथी ७, १७: २

श्वित्र- पावा ५, ४, ११५

रविप्र- पाग ४, १, १२३, २, ८०.

वैमि- पा ४, २, ८०.

वैवेय- पा ४, १, १२३

रविप्र- विव् द्र

विमज- (> वैमजेव-)

विप्रध्, न्य, विमज्याति वीथी ११,

२: १६, १८, २२, १३: १६

विप्रथिल, ता- तम् आपथी २२,

१६, ३, द्विथी १७, ६, ३१, -ता

वीथी ६, ५: १७.

विप्रथ्य वीथी ५, १७ ५, ६, १७

१६; १९. २०, २१ २१x१;

वैवेय.

विप्रह्, रविप्रह- विप्रह् द्र

रविप्रह- (> वैप्रहि- पा) पाग ४,

२, ८०

विघन- विपनिन्- विघ्न द्र

विघस- विघस- -सम् वीथ

२, ७, २१.

विघात- विन्- विघ्न द्र

विघृष्- विघृष्- द्रम् तु ३०,

१

विघ्न- विघ्न- विघ्नित- प्रघ्न

विघ्न द्र

विघ्न पापा रवा वृषभावे,

विघ्न मज ६, ६१

विघ्न- चये आथी ३, १३, ५,

आथी ३, ४, ४, काथी २५ ४,

३१, आपथी ९, ३, १८, २३,

वीथी, -नचिम् माथी ५ १, २,

१७, आपथ २, ७

वैवि(च>)वी- वी माथी ३,

४, ४, -वीम् आपथ ५ ५,

-रवी माथी ५, १, २, १७

विच-> विच प्र(च>) पा- पाग

२, १, ७२

विचफिल- पाठमो २, ३, १०८.

विचवल्, विचवटे आपथी १६,

१६, १, माथी २, २, ६, २५,

पाथी, निष ३, ११, या ७,

२२, २०, ४६, विचवटे या

१२, २७, विचवट द्विथी २०,

२, ३६, आप ३, ५ ७, वाय

विचक्षण- पाठमो २, २, १२६,

पाग ८, १, २७, -नचिम् आपथी

२०, १२, ८, माथी १०, ७,

१५, माथी, -न आपथी

१९ ३, ७, वायुथी ४,

१४ १०, १६ १०, २०, द्विथी,

पत्र १, ८, २, आप २६, २, २,

अप ४३०, वीथ १, १०, २१,

-नचिम् आथी ४, ६, २१, आथी

५, ९, १६, आपथी १०, १२, ७,

वीथी, पाग ३, १५, २३, १, १,

-नचिम् आथी ६, ८, १४, १, १, १,

१४ १३, -न विप ७७ ८,

आप ४, ६, माथि २५, १२९

विचक्षण-चनसितव(व>)वी-

-वीम् काथी ७, ५, ६

विचक्षण व(व>)वी- वीम्

वीथी ६, ६ ७, १०, वीथी १२,

११ ३

विचक्षण(वा)म् न्ता-

-नचिम् वीथी १२, ११ ३,

-नचिम् आथी ७, ३, १२, आथी

३, ३, १४

विचक्षण(वा)म् न्ता-

नचिम्

नचिम् वीथी १६, ११

विचक्षण- पाठ ४, २, ३३

विचक्षण- वृ- आपथी ६, ११,

१, द्विथी ६, ६, १७

विचक्षण- पा ५, ४, ७७, -नचिम्

आथी १८, २३, १२

विचक्षण, विचक्षण वाप २, १३, आप

७, ८, विचक्षण आपग २, २०,

३१, विचक्षण वीथी १४, ५:

२, नचिम् २, १६, ४, १९, १३,

१३, विचक्षण वीथी ५ १,

२, १७, विचक्षण वीथी ३,

१३, १२, वीथी, विचक्षण

वृ ८, २७, विचक्षण वीथी १२,

१५, ११, विचक्षण वाप १०,

१६

विचक्षण विचक्षण ३, ८ १, ९,

१ ५२, विचक्षण विचक्षण ५,

७ २७, ९. १५x१

विचक्षण विचक्षण ५, ५ २३

विचक्षण वृ ८, २३

विचक्षण- नचिम् आपथी १५ ११

२, वीथी ९, १८ ८, माथी

विचक्षण- नचिम् वीथी ३, १३,

५

विचक्षण- पाग ५, २, ३६, -नचिम्

आथी १, ५, ३३, विचक्षण ५, १०

१, -नचिम् माथी १०, ८, १२,

-नचिम् आथी २, ३, ७, ११, १,

a) वि-व- टि ३ । b) आप । c) विमज- इति वाका । d) अर्थ १ । e) तु पागम । f) = अक्ष रोष । उप कर्मणि प्र । g) वैप १६ । h) = इति विशेष । आथी २५, ४, ३१ । i) सोपार्थ वैप १ विचक्षण वि ४, ८, ५ टि ३ । j) कत । k) तथा विच<> विचक्षण वीथी <> वीथी ६, ६, ७, १९, वीथी १२, ११ २ चनसितवतीम् इति पाठे । l) वप । m) वा विवि । n) पाठे वैप १ विचक्षण मे १, ५, ११ टि ३ । o) पाठे वैप १ विचक्षण वि ४, ३, ११, १ टि ३ । p) पाठे वृ १०, १५ ४ ६ ।

-रा० उनिस् २. ३४, -रा कुस्
 २, १० : १, १४ २४, -राणाम्
 निस् ८, १० : ११, -रान् सुस्
 ३, १ १, -रे सुप् २, ५३^०
 विचारित- पा ५, २, ३६
 विचारण- णम् अण ६४, ५, ७,
 -णे सुप् ६ २०
 विचारणा(ण-म)र्थ- र्थे वा
 २, ४.
 विचारणीय- यम् वैध ३, ४,
 १०.
 विचारणा- णा षष् ३४९
 रविचारित- वम् अण ७०, ११,
 १, मास् २, १२
 रविचारितसमुच्चयो भास् ३, ४
 विचारिन्- रि० आश्री २, ७, १४
 विचारिणी- णि वीश्री १३,
 २४ : १२^१
 विचार्य वैध १, ३, ४, वीश्रीका
 विचार्यमाण- णानाम् पाट, २, १७
 विचरपण- ण्य वीश्री २, ५,
 ४१
 विचरपणि- णि आश्री ७, ४, ४,
 आश्री १, १, २, ११, १३, ३१,
 २८, ८, ८, आपश्री, -०णे
 दाश्री १, ४, ५, लाश्री १, ४, २,
 वैश्री २१, २
 विचृत्य विचारण्य आपश्री १२,
 १६, ६, १५, १९, १०, १६, २३,
 ७, आश्री ११, २०, ६, वैश्री १८,
 १७ २६
 विचरालित-> शत-य- श्वाद् मीस्
 ६ ७, १९

विचष्टि- ष्टि० ह्रिप् २, १६, ५^१
 विचि(वधा), विचिनोति काश्री ७,
 ६, २, ७, ८, वीश्री १२, ६.
 ८, भाश्री १०, १३, १९^०, वाश्री
 ३, ३, ३, २७, वैश्री १३, ७^०,
 काश्री ३१, ३^०, कौश्री १७, १७,
 २४, ४^०, या ५, २२^१, वि
 चिनयत् वीश्री १०, ३६. १८,
 ३८ २६, ४० : २३, ४३ ५,
 ४६. ५१x४, विचिनुयात्
 आपश्री १०, २०, १६^०, १९
 २०, ८, वीश्री, माश्री २, १, ३,
 ५५^०, हिश्री ७, १, ७५^०
 विचय- पाण ५, २, ६४^०, -यम्
 निस् १, १ २, ७. ३५, उनिस्
 १ १
 विचयन- नम् माश्री २, १, ३,
 ५५^०.
 विचित- वम् वीश्री ६, २ १२,
 वैश्री १२, १७ १३
 विचितकेत- नम् काश्री ७,
 २, १६, -शानाम् काश्री ११८
 विचित्य आपश्री २, ११, ३^०,
 २९, ६
 विचिप- त्य आपश्री १०, २०,
 १४
 विचिन्वत्- न्यङ्ग्य आपश्री २,
 १८, ३७, भाश्री २, ९ १३,
 ह्रिप् २, ९, ०, -०न्वत् आपश्री
 २, १८, ३७, भाश्री २, ९ : १२,
 ह्रिप् २, ९, २
 विचिन्वती- ०ती आपश्री ४,
 ८, २७, २८, -०त्य वीश्री ४,

१९, ८.
 विचीयनात्- न्, अणाम् ३, १^१,
 -नम् काश्री ८५, -नय
 आपश्री १०, २०, १, माश्री १०,
 १३, ११, हिश्री ७, १, ७५^०.
 विचिकित्सत्- ष्सा-, षित-
 रि० षिट् ६.
 विचिचिन्त्, विचिचिन्त् या ५, १, १४,
 २०^०
 विचिचिन्त्- न्यङ्ग्य या ४, १९^१
 विचिचिन्त्- पाण ६, २, २४.
 विचिचिन्त् (मे>) मां- मां
 आपश्री १८, १०, १५, वाश्री ३,
 ३, १, ३५, हिश्री १३, ४, ५,
 -मां वीश्री १२, ५ २१
 विचिचिन्त्- न्ना या ४, १९
 विचित्र, प्रा०- पाण ६, २, २४,
 -त्रम् षिष् ११, १२^०, -त्रा अण
 २१, ६, ३, -त्राणाम् अण १, १,
 २, -त्राणि अण ७०^०, १३, ४,
 -त्रै अण ६४, ३, ७
 विचित्र रूप- यम् अशां ६, ४
 विचिन्वत् > विचिन्वित- वम्
 अण ४०, ५, ४
 विचिन्वत् वैध २, ६, १, हिष् २, ६,
 १९
 विचृत्, विचृति वैश्री ४, १९,
 कौश्री ३३, ५, ४८, १५x४,
 विचृतामि कौश्री ६६, २४^०,
 विचृत् > वा सुप् ३, १९^०
 वैश्री ३, १२, विचृत् वीश्री
 ३, १, २९, अणाम् ४, १, विचृते
 आश्री १, ११, ३

d) अर्ष १। b) तु वा ट, २, १०२। c) = भागमापयित्- इति नारायण। d) वैप २, २७ ६।
 e) वैप १ ६। f) स्या आपश्री २, १६, १५-१७ विचृष्टि इति पाणि। g) या अवरयण्डने षुति। h) या
 शिषाशरुणे षुति। i) = विचिरति इति दारित। j) या शोधने (सुधाशयनयने) षुति (तु ररदत्)।
 k) १ १३९८ ४ ६। l) यत्। m) स्या हिष् २, ४, १९ शिषा दण्डम् इति पाणि। n) विप, प्रात।
 o) विचिन्वत् इति जोडे।

विचृन्तति भाषी १०, २०, ११;
हिथी ७, ३, २८.
विचृते भाषथी १३, २०, १३;
१८, १६, ११.

विचृत्त-त्तः भाषथी १०, २९,
१; १३, २०, १३; भाषी १, ७,
४, ४२, ४४; हिथी ७, ३, २८;
-त्तः शांथी १, ६, ३०; भाषथी
२४, १२, ७०; ऋषा १४, ४६.

विचृष्य भाषथी १०, २९, ११;
काठथी २०; कौसू ८७, २६.

विचेत(ना>)न- नः वृदे ४,
११३.

विचेतयमान- विचृत्त द्र.

विचेष्ट, विचेष्टन्ते अप ७०^१, ९,
१; विचेष्टे भाषी १, ३, १, ३२.

विचेष्टमान- नान् सु ८, ५.

विचेष्टा-ष्टाम् अप ७०^१, १२, ३.

विचेष्टा-पृथक्त्व-नत्वेन हिथी
१, १, ३७.

विचेष्टित-नैः अप ७०^१, ९, १.

विचृत् पाषा. हुदा. पर. गती, हुदा.
उभ. भाषायाम् > विचृत्-पा ३,
३, १०.

विचृच्छ, चृच्छन्-न्दसः आथी
६, ५, १४; शाथी ६, ९, ३; वृदे
८, १०९; हुदा ४, १४४;
-न्दसम् शुभ ४, २१३; -न्दसी
वाथी ४, ८५; ९; -न्दःसु
उनिस् ६; २९; -न्दसि उनिस्
८; २६; -न्दाः ऋषा १७,
१०.

विचृन्दस-सः शाथी ८, १, १५;
-सामि निस् ५, ५; ५; -संपु
लाथी ७, ७, ३३; ९, ६.

विचृच्छि, चृच्छि, विचृच्छन्ति भाषथी
९, ४, ४; २१, २२, ५; वीथी;
विचृच्छन्ति भाषथी ४, ६, ५;
भाषी ४, ९, ३; वीथी ५, ७; ४;
हिथी ६, २, १६; इचिच्छिन्त
भाषी २, ५, ४, २४; विचृच्छियात्
भाषथी २, १४, ३; १२, १३, ४;
२१, २२, ५; वीथी; विचृच्छियाम्
भाषथी १७, १७, ११; हिथी १२,
६, २.

विचृच्छेद वाथी ४, ६४;
४, ५.

विचृच्छियते भाषथी ९, ४, ४;
वीथी १४, ९; २०, ४४; भाषी;
विचृच्छियेय भाषथी ९, ८, ५४
२०, ७; वीथी १३, ४३; ६; १४,
६; १५; भाषी ३, ६, १; वीथी.

विचृच्छित-सिः भाष ३, २१;
१२.

विचृच्छय भाषथी १४, २४, ७; वीथी.

विचृच्छयमान-नम् वीथी १४,
६; १४.

विचृच्छ-सः आसिप २, ७, २;
९; १२; ८; १३; ९; ३६;
भाषः-सम् आथी २, ५, १४४;
भाषी २५, १०, २५१, वीथी;
-साः अप ६३, ४, ९; -सामि
निस् ४, ६; १; -सानाम् ऋषाय
६, ५; -से आसिप २, ६, ५; ४;

भाष ३, २०; ११; वीथः -सेपु
वीथी २०, ३१; ४; आसिप २, ६,
५; ६; वीथ २, ९, १०; भाष ३,
१५; १५.

विचृच्छन्-र-त्वम् भाषि १३,
७.

विचृच्छन्-मायविपत्ति-सिः वीथी
२२, ७; ७.

विचृच्छन्-सोमपीय-पः वीथी
१८, २५; ३; -साः वीथी १८,
२५; १.

विचृच्छन्(स-स)गिन-सिः
वीथि २, ५, १; हिपि २१; ११.

विचृच्छन्(स-स)गिनहोत्र-सः
वीथी १३, ४३; ५.

विचृच्छेद-दः मीप १०, ५, ४८;
-दम् हुदा ४, १६३; -दाव
ऋषा ६, ४७.

विचृच्छेद-दोष-सः अप २; ४४.

विचृच्छेदन-नाव् ऋषाय १, ३.

विचृच्छ्य, विचृच्छ्यायिषीत् निस् ८,
४; २०; विचृच्छ्यायिष्यन् निस्
६, ६; १६.

विचृच्छ्यायिष्यन्-स्यन् निस् ७,
१२; ६.

विज् पाषा. हुदा. उभ. पृथक्त्वे;
हुदा. आसि, रुषा. पर. भय-
बलनयोः, वृद्धेय दिप १, ११, ८.
वृद्धेय-सः अप ४८, ८५; निप
३, १५.

वृद्धेय-पाष ५, २, ३६; ६, १, १५६;
-गन् शांथी ८, २५, ११; -नेन

a) पाठः ! विचृष्य इति सा (तै १, ८, १४, २), विचृष्यते इति C. शोधः । b) एतः इति पाठः !
यनि. शोधः (सु. मै १, २, ६ [पामे. वैप १, २१५४ व द्र.]) । c) पामे. वैप १ विचृष्याः वै १९, ४६, ४ टि. द्र. ।
d) यव. । e) पा ३, १, २८ परासष्टः द्र. । f) वृदे. पाठः । g) = उन्वो-विशेष, ऋषा-विशेष- ।
h) निप. (विचृच्छन्ति ऋषि गीयमान-] सामन्, स्तोत्रीय-) । i) पाठः ! विचृच्छन् इति शोधः (सु. लघा.
वैषा ३, ७, १३, १ वैसाथी २४, १ विचृच्छन् इति पामे.) । j) = यम- [वर्ष-] । k) पा ७, ४, ७५ परासष्टः
द्र. । l) = विचृष्य- (सु. वैप १) । m) भाष. ।

वैष्ट ५, १ : २६; वृदे ७, ५; वाध
 ३, ५८; विष्ट २२, ११.
 वेग-अना(म-अ)वेत- -तम् विष्ट
 १३, ५.
 वेग-वत्- -वतः वाञ्छ ७ : ४^३.
 वेग-समीरित- -ताः अण ६१,
 १, १९.
 वेगित- पा ५, २, ३६.
 ष्ठवेग^० -०म् द्विष्ट १, ११, ८.
 ष्ठिवेगजम्^० वैष्ट २, १५ : ८^१.
 वेजन-> ष्ठ-वत्- -वान् या २,
 २८; ३, ३; २०, ३१.
 विजगध- (> वैजापक- पा.) पाण
 ४, २, ८०.
 वि-ज(टा>)ट^१- -टात् शाष्ट १, २८,
 १०.
 वि√जन्, विजायते वाधूथी ४, ११८:
 ६; ७; द्विथी १४, ४, ३८^१; भाष्ट
 १, २५ : १५; पा, पावा ५, २,
 १२; विजायताम् साष्ट २, १८,
 १^१; विजायेत आपथी ९, ८, २;
 कौट् ३६, ३३.
 वि-जनन- -जम् द्विष्टि ९ : ५; वाध
 २, ३; विष्ट २८, ३७.
 विजनन-काल- -ले आशिष्ट २,
 १, ३ : १; द्विष्ट २, २, ८.
 ष्ठि-जनिथोस् (ः) पाष्ट १, ११, ८;
 वाध ५, ८.
 वि-जनिथ्यमाण, मा- -व्यः आपथी
 ९, ८, २; -णाः वाध १२, २४;
 -णापाः वाष्ट ३३, २.
 ष्ठि-जन्मा^० - -व्या पाष्ट २, ७, १०;
 गो २, १४.

वि-जात, ता- पाण ५, १, १२४^१;
 -तः आथी ४, ६, ३^१; -तम्
 वाथी १, ४, २, २^१; अण ७०^२,
 ११, २; -तायाः भाष्ट १, २३ :
 १^१; -षुजायाम् आपथं २, १४,
 २; आशिष्ट २, १, ३ : २५; भाष्ट
 १, २३ : १८; द्विष्ट २, ३, ७.
 वैजात्य- पा ५, १, १२४.
 वि-जामन्^० - -क्षि अण ४८, ११६.
 ष्ठि-जिञ्चन्^० - -व्या आपथं १, ७, २;
 छुप्रा ५, ६.
 वि-जन्त^० - -जने वैष्ट ५, ६ : ३; ६;
 वृदे ६, १९.
 वि√जप् > वि-जजप- -वः या ५,
 २२.
 वि-जयत्- प्रष्ट. वि√जि द्र.
 विजर^० - -राणाम् अण ५०, २, १.
 वि-जरा-रो(ग>)गा^० - -गाम् वृदे
 ७, ४७.
 वि-जहत्- वि√हा (त्यागे) द्र.
 वि-जानत्- वि√ज्ञा द्र.
 विजापक^० - (> वैजापक- पा.) पाण
 ४, २, १३३^१.
 वि-जामाट^० - -ता या ६, १; -षुष्टः
 अण ४८, ११५; निष्ट ४, ३; या
 ६, १^१.
 विजापक^० - (> वैजापक-)
 वि√जि^१, विजयते बौथी २, १ :
 २१^१; २२; अण ८, २, २; विज-
 यन्ति वीथी १८, ४६ : ८; १३;
 विजयन्ति शीथी २, १, ८; विज-
 यताम् शीथी १६, १८, ११;
 विजयस्व शीथी ९, १, १७^१;

विजयेत माथी ५, १, ७, ४८.
 विजिये वृदे ४, १३२; विजेयते
 अण ५१, २, २^१; विजेयति अण
 १, ३६, २; ३.
 वि-जय, या^० - पाण ५, २, ६४; -यः
 अण ३१, १, ४; आण्यो १, १^१;
 ३, १; -यम् आपथी २०, ११,
 ८; द्विथी १४, ४, ३२; अण १,
 ३१, ६४; शीथ ११६ : ५४^१;
 -या अण १, १, ११^१; आण्यो
 ६, २^१; -ये^० अण १८^१, १६,
 १; ३१, ५, १; शीथ १०, १२;
 -येन या १, २; आण्यो ३, १^१.
 विजय-क- पा ५, २, ६४.
 विजय-काटिस्त्रन्^० - -द्विषणा
 अण ८, १, १.
 विजय-काम- -मस्य अर्था १७, ४
 विजय-अ(द>)दा- -०वे अर्था
 २, २.
 विजय-दल-वृष्टि-पशु-काम-
 -मस्य अर्था १७, २.
 ष्ठि-जय-भाण^० - -गम् आपथी
 ४, २, १; माथी ४, २, ४; द्विथी
 १, २, ५.
 विजय-माध- -ध्यात् काथी
 २०, ४, २७.
 विजय-मुहूर्त- -तं अण १८, ५,
 ७; १८^१, २, ७.
 विजय-लक्षण- -गम् अण ७०^१,
 ५, २.
 विजाया(द-अ)थं- -व्ये अण २६,
 ५, ४.
 विजया(य-अ)पह^० - -हम् अण

a) = अदि-विशेष-। b) निप. (द्वय-). कर्त्तरि कृत् । c) पाठः? सपा. द्विष्ट १, ११, ८ वेग वेजय इति
 [द. ०.] । d) बध. । e) वैष १ द. । f) अग्नि-जात- इति पाणम. । g) = प्रसूता-न्त्री- । h) = निर्जन-नृपाण- ।
 i) = देश-विशेष- । j) बध. > द्रष्ट. । k) विजापक- इति मोरः (द्र. पाणम.). । l) पा १, २, १९ परावृष्टः द. ।
 m) भाष. , नाप. । n) = मुहूर्त-विशेष- । o) = मरुद्-विशेष- । p) = षोडशमातृका-प्रत्यय- । q) = द्विषि-
 विशेष- । r) उप. कर्त्तरि कृत् ।

२२, ३, ३, २५, १, ९
 वि-अवत्-यन्त द्विप्रौ १८, १,
 २०.
 वि जयन्त-पाठ्य ३, १०८
 वि जयिन्-वी अय ५१, ४, २
 वि जयिष्यत्-व्यय् अय २, १, ६
 वि ज्योतिषाण-ण आधौ ९, ७,
 ३०, १०, ६, १, -णा आधौ
 ११, ३, ११
 वि जिगीषा-(>)थीय-या)
 पाण ४, ३, ९०.
 वि-जिव-तम् वैताप्रौ ३७, १३,
 गौष १०, ४०, -तस्य आधौ
 ९ १०, १७, -ते आधौ २, ९, ८,
 वाधूधौ ३, ९९ ८
 विजित्-नी आधौ ९, ३,
 १३, बीधौ १५, १ १, वाधूधौ
 ३ ६९ १
 वि जित्-तिम् आधौ ११, ३, ११,
 -नी आधौ १०, ६, १, -कृथै
 वाधौ १९, ५, ४, आपधौ ४, २,
 १, बीधौ १४, ४ ३०, २४,
 २५ १८, भाधौ
 वि विज् आपधौ १८, १९, ५, भाधौ
 नि जिष्ठा ११, ५
 वि-जेष-(>)प-कृत्-नृहन् अय
 ४ ३१, वा ६ २१
 वि जिघासत्-सा-वि० हृद्
 वि जि(हा >)हृ-हृ विष ५,
 १३
 वि०/क्षा, विमानादि आनधौ १२,
 २६, ११, १३ २ ४, बीधौ ५४
 १५, भाधौ, विमानत आनधौ
 १४ २१, ८१, द्विधौ १२

६, २६१, अय ५२, १, १३,
 विजानन्ति वाधूधौ ४, ३७ १९,
 या २, १६, विजानीये विष ११,
 ११, १२, ७, वृद्धितामि
 वृदे १, ५६, या ६, २८^१xx,
 विजानीम वाधूधौ ४, ३७
 १८, निवृ १, १३ २३xx,
 वृदे ४, ७३, विजानत् या
 १४, २०१, म्पानात् वाधूधौ
 ४, ८३ २, विजानीयात् बीधौ
 २५, २८ २०, २७, ४ २२,
 आप्य ८, ७, कथ, विजानीयु
 वाध १८, ७
 विज्ञापते आधौ २, २, १३, ५,
 १९, १७, ५, ३ १३, १४xx,
 आपधौ, बीधि १, १९ १०^०,
 अत्रय ३, ८^१, विज्ञापते बीम्
 ६०, ६, वा १, १०, विज्ञापन्ते
 बीधौ २५, २३ १०, बीध ३९,
 २१
 विज्ञापयति अय ३६, १, ६, ११,
 विष १, ४४, वृदे १, ३,
 विज्ञापयेत् अय ३, ३, ७
 विज्ञासन्ते बीधौ १६, १३
 ६, विजिज्ञासेत निवृ २, ३
 ११
 व्यजिज्ञासिषि शाधौ १६ २९,
 ८६.
 वि-जानन्-न्ता कय १, ८, १८,
 अय ४६, २, ९, अथा ६, ४^१,
 विष ३२, ११, बीधि ३७, -नन्
 आपधौ ३, १२, ११, बीधौ ३,
 २१ ४^१, भाधौ ३, ११, ११,
 द्विधौ ३ ९ १०१, आभिष्ट १, ५

४: २११, वृदे २, २०
 वि जिज्ञासमान-न बीधौ १४,
 १३ २३, -ना बीधौ १६,
 १३ २
 वि जिज्ञासा-साधौ बीधौ २३, ८
 ७
 वि ज्ञान, वा-त शाधौ १६ २९,
 ८१, -तम् आधौ ८, १३, ९,
 भाधौ १०, १४, ४, १^१धौ १०,
 १३ २, १४, १६ ८, आपध,
 -तस्य पावा १, १, ५२, -ता
 वाधूधौ ३, ७७ ४, बीध २ २,
 २५, -ता लाधौ ९, २, १६,
 बधू १ २, -ताम्प बीध ३,
 १०, १६१, -ताप आभिष्ट १,
 ५, २ १६१, -ते बीध १, ९, १,
 वृष्ट ७, ६ २, -तेषु बीधौ २२,
 ७ १२, २३, २ २९
 विज्ञात्(त अर्थ)-थैम् या १,
 २०
 वि ज्ञानि-ति पाठ्य १, ५ ९^१६.
 वि शास्त्रम् या २, ३
 वि ज्ञान-नन् आनधौ १९, १३, १,
 २७, ६, २२, १६, ८, बीधौ ८,
 ९ २२xx, बीधौ, आपधे १, १०,
 ११^०, आभिष्ट २, ५, ५ ४^१०,
 वृष्ट १, १७ ४^११^१, -तस्य अया
 १, १, ६, -नाय आभिष्ट १, ५
 २ १९१, अय २ २, -नेवा २,
 ३, -नेव बीधौ १४, १३ २९१,
 -ने माधि १५, ४
 पविज्ञान-तम् पावा ५, १,
 १२, -तस्य पावा ६, ४, १२०,
 -नात् पावा ८, ९, ४८

a) इति प्र उस (पा ५२, ८८)। b) वैप १६। c) न्व। d) विजानीम इति ड ल।
 e) विज्ञापत इति पाठ २ यनि सोध (त सप्र आभिष्ट ३, ८, ३ २४)। f) राहृद् वि(र)क्षा इति पाठ १
 यनि सोध। g) सप्र वैमि २, ३२९ व्यजिज्ञासे इति पाठे (तु ० [टि])। h) परस्पर पावे। i) अ विज्ञानम्
 इति पाठ २ यनि सोध (तु ते ३, ४, १)।

विज्ञाना(न-ञ)र्थ- अम् पावा
 ७, ३, ५६.
 वि-ज्ञापयत्- -यन्तः दाश्री ९, ४,
 १०; लाश्री ३, ८, ५.
 वि-ज्ञाप्य गौध २, ३५
 वि-ज्ञाय बीश्री १, १ : ५, वैश्री.
 वि-ज्ञेय, या- -य काण्ड ४३ : ७,
 माण्ड १, ११, १; कप्र १, १, ८,
 ६, २, ३, ७, १७, श्वर, -यम्
 कप्र १, २, १०, लप २५, १, ९,
 ३३, ३, ४, ३६, ३०, १××, विघ,
 -या कप्र १, ८, १२; अप २२,
 ६, २, ३३, २, ५, ३, ५, ३४, १,
 ४××, शप, -याः आपश्री १६,
 १९, १३, कप्र २, १, ११, अप
 ५२, २, २, ५, ३, १२, ४××,
 श्चय, -यानि अप ६१, १, २८^३,
 सुदे ४, १४४, -वौ अप ५२,
 १०, ५, ६४, २, ५
 वि√ज्या, विजिनाति आपश्री ५,
 २०, १
 वि√ज्या^३ -०३^३ माश्री ४, ६, २^३,
 ३
 विट् पावा भ्वा पर शब्दे.
 विट^३ -(> षी- पा) पाग ४, १,
 ४१.
 रविट- पागम ११४.
 विटक^३ -(> षी- पा) पाग ४, १,
 ४१
 विटह^३ - पाण्ड २, ४, ३१
 विटप^३ - पाठ ३, १४५, पाग २,
 ४, ३१
 रविटप^३ -(> षेप- पा) पाग ४,
 १, ११२.

विट्-काम- प्रसृ. विट्- द.
 विटर- पाठना ५, ४६.
 विटङ्ग- पाठ १, १२१; पाग २, ४,
 ३१.
 विटायतनीया- विट्- द.
 विडाल- विडाल- द.
 विट्टर- पाठमो २, २, ५६.
 वैट्ट^३ - अम् अप ६७, ५, १.
 वैट्टयो(र्वे-उ)पल-बद्ध- द्वे अप
 ६८, १, २१.
 विडौजत्- पाग ६, ३, १०८.
 विट्-भूत- प्रसृ. विट्- द
 वि√तध> वि-तध, टा- -दम् काश्री
 ८, ८, २२, -टा बीश्री १, २ :
 ६१.
 वि-तधि^३ -दिम् बीश्री १०, ५० :
 २.
 वितङ्ग- पाग २, ४, ३१.
 वितण्डा- (> वैतण्डिक- पा) पाग
 ४, ४, १०२.
 वि-त(वा>)थ^३ -य कापध २,
 ६, २, हिघ २, २, २, -थे विघ
 ६, ४१^३.
 वितदु- पाठ ४, १०२
 वि√तन्, वितनोति आपश्री १३,
 ९, १४^३, बीश्री ६, १ : १६^३,
 काश्री, वृत्तिगन्ते काश्री ३, १४,
 १०^३, आपश्री ६, ३१, ४, बीश्री
 १४, २५ ७, माश्री, विघ
 २३, ५८४, वितन्वित काश्री
 २, ५, १३, आपश्री १२, १२,
 १२, बीश्री, विततु अत्र १, १,
 १३, शौच ४, ३; वि(तनुज्म)
 वैश्री १८, १५ : १४^३, स्वतन्वत्

काण्ड ४१, ५१^३, वि... स्वतन्वत्
 आश्री ४, ६, ३, शाश्री ५, ९, १६,
 वि(स्वतन्वत्) शाश्री ७, १५,
 १३^३, वितनुयात् गो २, २०,
 वृत्तितनुयुः दाश्री ३, २, २५,
 लाश्री १, १०, २०.
 वृत्ति... स्वतन्वत् आपश्री १०, २७,
 १०, ३३, ६, ११, बीश्री ६, १५ :
 २४, माश्री, वृत्ति (स्वतन्वत्) काश्री
 ७, ९, ८; शाश्री ५, ६, ३,
 वृत्तितन्वित^३ शाश्री १३, १२,
 १३, बीश्री ३, १५ : १७, २४,
 हिश्री १५, ३, २४, ८, ३०,
 वितेतिरे वा १३, ८^३.
 वि-तत, टा- -तन्. शाश्री १३, १२,
 १३, १५, १७, १, आपश्री १६,
 २९, १, बीश्री, -तन्त् काश्री
 ४, ६, ३, आपश्री १२, १२, १३,
 बीश्री २८, १ - १९××, वैश्री,
 -तन्त् आपश्री १०, ६, १^३, हिश्री
 १०, १, ३४^३, आपश्री १, २, १^३,
 काग ३, ५^३, या ९, १८, -तन्त्
 काश्री २५, १, ११, आपश्री ३,
 १३, १, २४, १२, ६, बीश्री ३,
 ३० - २२××, -तन्त् हिश्री ७,
 ५, २५, काघ १२, ९, -तन्त्
 लाश्री ९, ९, ९, -ते शाश्री ७,
 १५, १३^३, काठयो १२४, बीश्री
 २७, १ : १५, २५, २ ३××, वैश्री,
 -तैः अप ७०^३, ११, १६, -तन्त्
 काश्री ८, ३, १८, शाश्री १२,
 १२, १, बीश्री १४, ७ १३,
 २६, ७ १५, बापश्री
 वितत-वृत्त^३ -व्यम् शाश्री १७,

a) = आसुरि-गन्त्री-। b) सपा. मे ४, ९, १७ विट् इति पाठे। c) इ पागम। d) परस्पर पाठे।
 e) = कपोत-पालो- इति पागम.। f) = इत्त-। g) व्यप.। h) नाप. (मणि)। i) नाप (पाठ-)
 j) रत.। k) = लक्ष्य-। l) परस्पर पाठे.। m) पाठे भैव १ स्वतन्वत् टि. द.। n) = सपा. वे १०, ५,
 ८। मे १, २, १ वृत्तितानि इति पाठे.।

५, १; -धाः वीथी १५, ७ : २०;
 -मानम् वाधूथी ३, ७६ : १-५.
 विवत(त-आ)दि- -दिः घृटे १,
 ५०१.
 वि√तति (<तत-) > वि-
 तत्यमान- -नम् आपथी १२,
 १२, १३.
 वि-तत्य आपथी १, ४, १२; ५, १२;
 १२, १६, ११४; वीथी.
 वि-तनन-> न-काल- -ले द्विथी
 ७, २, ७६.
 वि-तन्वा(न)ना- -ना वीथ २,
 ६, ११.
 वि-तान^०- पाठ २, ४, ११^०; -नम्
 काथी २५, ७, १५; द्वाथी १२,
 १, ११^०; पाठ ३, ८, ३; -नरय
 वैतथी १, १; -ने आथी १, १, १^०.
 वैतान^०- > न-अथैम् वीथी
 ४, १५, ६; पाठ ३, १०, ३२.
 वैतान-रथ- -रथम् वाध
 ६, ३०.
 वैतानिक, का- -कः वीथ
 ३५३; -काः अथ २२, १, ३^०;
 -कानि आथी १, १, २; आथ
 १, १, १; आथिण २, ७, ९ : ३;
 भाथ ३, १८ : २; -केयु काथी
 १, १, १८^०.
 वैतानिकी- -कीः अथ
 २३, १२, ५.
 वैतानिका(क-वा)नि-
 -निभिः कथ ३, १, ७.

वितान-रथ^०- -रथः चय्यु ४:८.
 रथि-तान^०-> न्ना(न-आ)दि- -दि
 जैथीका १८४.
 वि√तप^०> वि-तप- -> ने^० (>
 ने √कृ पा.) पाठ १, ४, ७४.
 वि-तर-> वि-तरम् या ८, ११^०.
 वितराम् आपथी ११, १८, ५^०;
 वीथी ५, १२ : १२^०; वाधूथी ३,
 १९ : १०; वैथी १४, १६ : १३;
 १३; द्विथी १०, ४, ७^०.
 वि-तप, घा-, -घि- वि√तत् द.
 वि√तस्, वि...तत्से वैताथी ३२,
 ११; वि(तलो) अथ २०, ७५.
 वि-तरत- -स्तम् या ३, २१.
 वितस्ता^०म- -फि ५७; पाठभो २, ३,
 १३४; -स्तया या २, २६^०१०;
 -स्ता या २, २६; -स्तायाम् विथ
 ८५, ४६.
 वितस्ति^०- पाठ ४, १८२; -स्ति
 आय ४, १, ११^०; -स्तिः वैथी
 ११, १० : ४; द्विथि १६ : ७; अथ
 २२, २, ४; वाद्य ७, ३; २५;
 -स्तिम् वाथी २, १, ४, ३६;
 -स्तीः चय्यु ४ : १४; -स्तया
 वाथी १६, ८, १५; आपथी १६,
 १७, १४; वैथी १८, १४ : २८;
 द्विथी ११, ६, २०; वैथ ५, १२ :
 ११; आपद्य ८, ६; द्विथ ३, ६.
 वितस्ति-मात्र- -त्रम् वीथि १, २,
 २४.
 वितस्त्वा (स्ति-वा)व(त)ना-

-ताः विथ २१, ४.
 वि-तार(का)> क^०- -ताः अथ ५२,
 २, ५.
 वि-तार्य वि√तृ द.
 विताली (> ली√कृ पा.) पाठ १,
 ४, ६१.
 शितासेनसुगम् वाधूथी ४, २६ : ४.
 वि-तिमिर, रा^०म- -नम् अथ ५८^०,
 १, ४; -राः विथ १, २८.
 वि√तुद्, विठुदेयुः आपथी २२, ४,
 २५; द्विथी १७, २, २६.
 वि-तुद्- -दस्य वीथ २, ८, २८;
 ३९; भाथ ३, १४ : १६.
 वि-तुप^०- -याः गोप ४, २, १०;
 -यात् आपथी ८, ६, ३.
 वैतुदिक^०- -काः वीथ ३, ३, ३०.
 वि-तुल^०- -क. व आपथ २, १६, ६;
 द्विथ २, ७, २.
 वि√तुह> वि-तुहा(ख)> ना- -गाः
 वीथी १२, ११ : ११^०.
 वि-तृतीय, या^०- -या वीथी २६, १५;
 २१; वीथ ३ : २६; -याम्
 काथी ५, ३, २६; -ये काथी २,
 ६, ५; ४, ८, १८; १६, ३, २९;
 काद्य १, २६.
 वि-तृतीय-देश^०- -तात् आपथी २,
 १, ४; वैथी ४, ११ : ५; भाथी
 २, १, ५; -थे आपथी २, १, ६;
 ३, ११; ५, ४, ५; ११, ७, २;
 भाथी २, ३, ११; ५, १८; वैथी.
 वि-तृतीयमात्र^०- -त्रे भाथी १, २, ४,

क) नाथा. द्र. । ब) भाष. (त्रैतामि-विस्तार-। उ. हरिहरः) । उप. भागवतं प्र. । द) तु. पाठम. ।
 ए) = धौताभिनिहारदेश- । ए) = अग्निहोत्रादि-कर्तृ- । फ) स्वार्थं नवेऽर्थे वा प्र. । ग) = वैतानिकी- ।
 ह) = त्रेताऽदि- । इ) = परिशिष्ट-विशेष- । ज) = उल्लेख- । उप. कर्मणि कृत् । क) पा १, २, २० परास्यः द्र. ।
 ल) = मत्तो-विशेष- । म) वैप १ द्र. । न) विप., नाप. (। प्रावक्ष्यात्सुल.) प्रमाद्य-विशेष- । ०) विप. । प्रमाद्ये
 प्र. सुप् । ष) वस. । घ) विप. (नमसु., दिश्-) । र) उप. कर्त्तरि कृत् । स) = तुपरहित- । ट) = वानप्रस्थ-
 विशेष- । तेन तृतीयमायुं कृत् प्र. । ड) उपप. । ढ) धामे. दृ २१९३ दृ द्र. । झ) विप. (देवत., वेदि-) । ञ.
 (ड. काद्य १, २७; विधापरः (काथी २, ६, ५) । र) वस. > कत. ।
 १९४-अ-१२

२, २३, ५, २४, ५, २, ९, ७, ३, १४,
वाधौ १, ४, १, २४

वि०/१६, वितर्कयति शाश्वी १७, १,
१४

वि०/१६ - > शृणुष्या^७ - ण्याम्
आपधौ १६, ६, ३, बौधौ १०, ९
१५, वाधौ २, १, १, ५१, वैधौ
१८, ३ ९, हिश्वौ ११, १, ६८
वितृष्णी^{१०} - ण्याम् बौधौ
११, १ १२, २२, १३ ६

वि०/१६, वितृष्ण^० बौधौ ७, ५ ४
वितृष्णवत् माधौ २, ४, १, ३५^६,
वितृष्ण जैधौ १४ १९^०

वि०/१६ - टि.^० आपम २, १६, १५-
१७

वि०/१६ (>)वा^० - पा १५ २३४

वि०/१६ (>)ण^० - > वृष्ण्य-
ण्यम् विध २३, ४३.

वि०/१६, विवेर^० विध ५२, १२,
वि वि अतिरत् शाश्वी ७, १, १२,
शाश्वी ८, २५ १, वैताश्वी ३५,
११, वि वि (अतिरत्) अश्व २०,
२८, ३९

वितरयति शाश्वी ७, १, ४

वि-कार्य वाश्वी ७, २, ७

वि-चित्त - वि०/१६ (लाभे) द

वि-चित्त - वि०/१६ (विचारणे) द

वि-चायनी - वि-चित्त - वि-त्वा वि०/१६
(लाभे) द

वि०/१६ > वि-असत् - सन् याधि
२, ९९

वि-आसत् - सन् अश्व ६२, ४, ३

वि०/१६ पाषा भ्वा आत्म याचने

विद्यक् पाण १, १, ३७.

विद्युत्, रा^० - पाठ १, ३९, -रम्,
-रा माशि ५६

वि०/१६ पाषा अश्व पर. ज्ञाने, जुरा
आत्म चेतनाख्याननिवासेषु,
विद्वेषे^० आशिष २, १, ३ ३०^१
वेत्ति विध १६, १७, वा १४, १३^०,
वेद, > शा आश्वी ७, ४, ३^१,
शाश्वी ४, २०, १^१, २१, ११,
११, १२, ४, ४^१, १४, १२, २४^४,
काश्वी, पाण १, १६, १७, माण
१, २५ ५, हिण २, २, ८, ऋण
७, ४०, ८, २९, विदित कप
१, ४, ११, विदु आश्वी ९,
७, २०, ऋणश्वी १२ ५, १५,
१५, १७, १, आपधौ, वि से
या ६, ८^१, विद्य अश्वश्वी
२०, ५, १५^१, वेत्थ, >
त्या ऋणश्वी ३, १०, १२, ११,
२३, ऋणश्वी ३, ३, ३, १६,
२९, ७, आपधौ, अश्व
२, ४^१, अश्व ७, ५४^१,
विद्य, > शा माधौ २, ५, ५,
२१, अश्व ७, ३३, अश्व ३, ४,
१, वेत्ति अश्व ६२, १, ५, विवेद
शाश्वी १, ४, ५, ४, १८, ५^३,
आपधौ १०, २, १०, वाध्वी
४, ७५ ३१९, वैधौ,
विद्योद्रे अश्व ४०, २, ५, ६, वैध
३, ९, ५, चाश्व १७ १४,
विद्य वाध्वी ४, ३७ १२, ११,

या ६, ८, विद्यति शाश्वी १५,
२७, १^१, विद्य, > शा शाश्वी
१२, २४, २, आपधौ १६,
१८, ६, १२, २५, १३^४,
माधौ, वेद अश्व १, २२,
वेदत् भाशि ३६^१, वेदात्
वाध्वी ४, ७५ १८, ३०, वेदत्
कौम् ८९, १७^१, विद्युत् हिश्वी
२१, २, २५^१, चाश्व १३ २,
विद्य वाध्वी १, ६, १, २३^१,
विद्य, > शा आपधौ ६, १, ८^१,
बौधौ ८, ८ १०^१, २०, ९
१३^४, वैधौ, अश्व ७, १३, ८,
४४, विद्यवात् वाश्वी १०, ३,
१२, वैधौ ४, ४. १८^१, हिश्वी
६, ६, १९, विद्यत् वा ४, ६,
५ २१, वेदात् आपम २, १३,
४^१, अश्व वाध्वी ३, २९ २५,
४, ५ ६, वाश्वी ३, ३, २, २,
अविदु पा ३, ४, १०९, विद्ये^१
आश्वी ५, १, १४, आपधौ १२,
६, ४, वैधौ ७, ४ २, माधौ २,
३, २, २५, वैधौ १५, ८ १,
हिश्वी ८, १ ८०, विद्यत् आश्वी
२, १६, ८, १०, ८, ३, शाश्वी
१७ ५, ४, आपधौ १, ९ ६^४,
काश्वी, आपम १, १५, १^१,
विद्यवात् अश्व १, १५, ८, श्व
१, १६, १४, शण्ड १, २४, ५,
विद्युत् आपम २, ६, ८^१, अश्व
३, ४, १, विद्य वाध्वी २, ९, विद्य
२९, १०, वा २, ४, विद्यत्

a) = अश्वश्वी - (तु माध ५ ४, ५, १ विदृष्णा इति पाठे) । b) वैध १ द । c) पाठे वैध १
विदृष्णत् मा ६, ३१ टि द । d) पाठे वृ २२०० इ द । e) वस । f) पा ३, १, २८, ४१, २, ६१, ४, ८१
पराश्वट द । g) पाठ १ सप्र वाण १, १५, १७ भाण्ड १, २५ ५ हिण्ड २, ३, ८ वेद ते इति, आपम २, १३, ४
वेदात् इति पाठे । h) वेत्थ इति मूठे । i) सपा तैवा २, ४, ८, ७ वेद इति पाठे । j) वै १, २, १४
विद्य इति, मा ६, २ प्रम् विद्यात् इति प पाठे । k) पाठे वैध १ अश्वे ते ६, ४, ३, ४ टि द । l) पाठे
वृ १७९० इ द । m) विदुत् इति पाठ १ यनि गोध (तु भू [२१११]) ।

वीथी १७, ४५ : २१, विद्याम
 निस् २, १२ २५, गा ४,
 १८१
 विवेद वाधूथी ४, ७५ ३८, गा
 ३, २२१, ७, ३०, विविदु
 शाथी १५, २१, १^२, वृविदेत्^३
 काथी ५, ३, २३, शुभ १, ३०८,
 वृविदे आपथी ७, ४, २^४ × ×,
 वीथी, माथी १, ७, ३, १९^२,
 वाथी १, ६, १, २१^४, वैथी
 १०, ३ ९^४, ४ ३, हिथी
 ४, १, ४५^४, वेदिष्ट वाधूथी ४,
 ८९ ३३, भवेदिष्याम वाधूथी
 २, १३ ३
 वेदन्ते तु १९, ३, भाग २, २३
 १, ५, ८, २४ १ × ×, वेदयति
 अय ४८, ९^१, वेदयन्ते वीथी
 २४, १८ १७, २९ ११, ३३
 १, २०, ३६ १६ × ×, निस्,
 आपथ २, १८, १९^०, वेदयन्ति
 गथ १८६, हिथ २ ५, ७२^०,
 वेदधीत आथी ८, १४, ३, आथ
 १, २२, १०, १२, कौथ २,
 ३, १६^४, भाग ३, १२ १०,
 वेदयेत वाथी ४, २१, २५^२,
 वेदयेत् गोर ४, १०, ५
 वेदियिष्यामहे छुम् ३, १ १
 विविदिष्याणि वाधूथी ३, ४०
 ९, गा २, ८
 विदा/ह, विदाहकुर्वन्तु पा ३,
 १, ४१
 विदासकार आथी १२, ९, १८,
 वीथी १८, २९ ३ वाधूथी
 २ १२ ६ ४, ३७ २, ४,

निस्, विदामकृत् पा ३, १,
 ४२
 विदु^०- पाग ५, ४, १०७^१, विदा
 वीथी ३, ३० २०^१
 विद^४-> वृविद-गण^४- -जेभ्य
 अय ४६, ९, १८, अय १२,
 २२
 विद भृत्^०- पाग ४, १, १०५
 वैदश्रुत्- आ वीथीप्र ४ २
 वैदश्रुत्- पा ५, ३, ११८
 वैदश्रुत्- पा ४, १, १०५
 विदत्- पा ७, १, २६, पाग ५, ४,
 ३८
 वैदत्- पा ५, ४, ३८
 वृविदथ^०- पाठ ३, ११५^३, -थ
 अय ४८, ९५, निथ ३, १७,
 -थम् आपथ १, २, ८, ९, ४,
 काथ २५ ५ वीथ १, ५ ३, अथ,
 -थस्य आपथी १६, ३५, ५,
 आथी २, १, ८, १६, हिथी ११,
 ८, २३, -थस्य आथी ४, ७,
 ४, आथी ५ १०, २१, -था वा
 ३, १२^३, -थानि अय ४८,
 ११५, निथ ४, ३, गा ६ ७^३,
 -थे आथी ६, २, ६ आथी ५
 ९, १९, आपथी १४, ३, १३,
 वीथी, -थेषु आपथी ५ ६,
 ३, १४, १६, १, हिथी ३,
 २, ५६, १५ ५, १, अथान ६
 १, या ८, १२^३, अथा ८,
 ३२
 विदथिन्^४- थी वृदे ५, १०२
 वैदथिन्^४- पा ६, ४, १६५
 वृविदथ्य^४- -थ्य आथी १२,

२०, २^१, -थ्यम् माथि ५६
 -थ्याय आथी २, १७, ७, आथी
 १५ ३, २
 विदित, ता- आ पा ५, १, ४३,
 -ताम् आथी २ ५, १८, माथी
 १, १२, २२^१, गथ २५३ विथ
 ९ १९, -तानि वृदे १, ३३,
 -ताम् वृदे ८ ७६, -ताथ शथ
 ६६, -ते आथी ८, १४, ४, -तेषु
 अय २५२
 विदित कर्मात्^४- आंगम् या
 ११ ३३
 विदित ख -खात् पावा १, १,
 ४४.
 विदित सेव^४- -वानाम् विथ
 १ ५८
 विदित्वा वीथी ७, १२ १, ८, १
 २, ९ २ × × आथी
 विदुत्- पा ३, २ १६२
 विदुत्- पाठना ४, ७७
 विदुत्^४-> आ(ना अ)वत्^४-
 वत् अथा ४, ७८^१, -वृत्सम्
 आथी १ १०, ८, आथी ९, २८,
 ३, आथिथ २ १, ५ २१, या
 ११, ३३^३
 विद्या^४- पा ३, ९९, पाग ४, ३,
 ७३ ५ ४, ३८^१, -थया काथी
 २५ ८, ५^१, वाधूथी ३ ९१ ४,
 आथ १, १, ४, काथ १०, २, वाथ,
 -था वीथी २ ३ ६, वैथी
 १२, १ २०, आपथ, -था
 आपथी ६, २३, १^१, भाग २,
 २० १२^१, वाथ २ ३९, वृदे
 ४, ११८, -थानाम् आपथ १,

a) परस्पर पामे । b) था अर्थात् गति । c) परस्पर पाम । d) स्या शंथ २, ६, ७ विवेद
 विद्या इति पामे । e) भाग । f) अर्थ २ । g) वैप १ द । h) = व्यप । उत ।
 i) *थ्य इति पाठ ? यनि शोथ (तु वी २० १२८, १) । j) पामे वृ १७९० हृ द । k) थय ।
 l) = [तस्य पाठ] पुत्र्य इति कथित [तु पागम्] ।

११, ३०, २०, १५, २, ५, १५,
 हिष १ ३, ८०, ६, २९, २, १,
 ९५, -घाम् शीघ्री १५ २७, ११,
 आप्तौ १३ ७७, ८, १४, १३, ७,
 द्वित्री, -द्याया आप्त २, २१,
 ४, हिष २ ५, ११३, पावा छ,
 २, ७, -द्यायाम् अथ ५. ४^०,
 मीत् २, ४, १४, ६ १, ३०,
 -प्रायस्य आप्त २, १०, १, काण
 २४, १३, वीण
 वैद्य-पा छ ३, ७३, ५, ४,
 ३८, -घ गीघ २८, ३१^०, अथ
 ७०, १२, १^०, -घम् आण छ, ८,
 १५^०, अथ ५, ५, ४^०, -घा वीण
 ३, १२, ३०^०
 वैद्य-कुशल- -आयाम्
 वीण ७, ४ २
 वेद्य दर्शन- -नम् शय
 २५०
 वैद्य-विषर्जित- -त अथ
 २, १, ५
 वैद्य हीन- -ने विष ७३,
 ६६
 विद्या-कर्मन्- मे आप्त १, १,
 १३, ५ २, हिष १, १, १२,
 ३, ३
 विद्या कर्मन्- -धर्मो या १४,
 ७
 विद्याकर्म-गुह-> १४-योनि
 सवन्ध- -न्यान् वाप १७ ५६
 विद्याकर्म(नि-अ)गुर्वीय-
 न्यात् मीत् ६ ८, १२
 विद्या-ग्राम- मस्य वैश्री २ ९
 ३
 विद्या वम- -मेण विप ७३ २
 विद्या-गुह- -न्य गीघ २०, ६,

-रूपाम् गीघ ६, ३, -रुन् गीघ
 २०, २
 विद्या(या अ)वरम वृत्त शील-
 सपत्न- वा वीत् ६७ ३
 विद्या(या अ)घार-गुणा(प-अ)
 म्वित- तम् अथ २, ३, ५
 विद्या(या-आ)घार-परिग्रह-
 -ए आणो १३, ५
 विद्या-चारित्र-अन्धु शील-
 सपत्न- -न्याय गीघ छ ६
 विद्या सपत्न- पोभ्याम् आश्री
 ९, ३, २०, वाध ३, ६०, विष
 २२, ९२
 विद्या तस(ऽ) आप्त १, १, १६,
 हिष १ १, १५, या १, १६
 विद्या-दान- -नम् वाध २९,
 १९
 विद्या(या अ)दि- -दीन् कप्र १,
 १०, १२
 विद्या देवता-> १०-नया
 अथ ९ ६
 विद्या घर्- -रान् शय ११६,
 २१
 विद्या(या-अ)धिपति- -तिम् वीघ
 ३, ६, २०
 विद्या-निर्दिता- -शात् मीत् ६, १,
 ३६
 विद्या(या-अ)न्त- -न्ते आण ३,
 १४, गीघ २, ५५
 विद्यान्त-वरा() वाध १६, ५
 विद्या प्रकर्म- -पे या १, ५
 विद्या प्रदाता- -सा मीत् १, २,
 १५
 विद्या(या-अ)भिजन-याग रूप
 यण् शील-सपत्न- -अम् गीघ
 ११ १३

विद्या(या-अ)भिजन-सपत्न-
 वा आप्त २, २९, ५, हिष
 २६, १८
 विद्या(या अ)म्यास- -सम् वीपि
 १, १५ १०
 विद्याम्यास वस- शात् अथ
 ८, १
 विद्या मति बुद्धि-मद्- -नताम्
 या १४, १४
 विद्या योनि-सवन्ध- -न्धेण
 पा छ, ३, ७७, ६, ३, २३, पावा
 ६, ३, २३
 विद्या(या-आ)रम्- -माम्
 आणो १०, ४
 विद्या(या-अ)र्षि- -र्षेम् याति
 २, १०२^०, -र्षेस्य आप्त १, १,
 १, २, १७, २, २१, ६, हिष १,
 १, ९, ५०, २, ५, ११४, -र्षी
 आप्त २, २६, १३, हिष २,
 ५, २०८
 विद्यार्षे स्व- -स्वात् मीत् ५,
 ३, ३६
 विद्या(या अ)र्षि- -र्षिन् वीण
 छ, १२, १, -र्षिणाम् याति
 २, १०९, नाति २, ८, २३,
 -र्षिणि याति २, १०३, -र्षी
 नाति १५, ८, याति २, १०३,
 नाति २ ८, २४,
 विद्या-लक्षण-सपत्न- -अ
 आणो १३, ११, -अम् अथ २,
 १, ६
 विद्या(या-अ)वचन- -नम् मीत्
 २, २, ४८
 विद्या वत्- -वत् आणि ३, २,
 ३ १०xx, वीपि २, १, १८,
 ११, ७, हिष २, १४, ८-१वत्ताम्

a) विद्यान् (श्री ९, ६, १) इत्यनुकरणात् वत् १ ६ । b) = परिग्रह- । c) = विक्रितम् । d) वृत् ।
 e) पण > दण । f) = देवयोजि विशेष- । g) मत् । h) वा किति । i) नाप । उण ।

आमिष्ट ३, १, २ १२x, गीष्ट
 २ ११, १६, गीष्ट २, ८, १२^१,
 -यन्ताम् गीष्ट २, ६, २५, हिष्ट
 १, २३, ५
 विद्या विक्रयिन्^१- भी क्षय
 ३७७ १२
 विद्या विष्ण-कर- नाणि नाशि
 २, ८, २९
 विद्या विष्ण वय-सयन्ध- अथा
 वाध १३, ५६
 विद्या विद्- ण्विद्- अा १,
 ३७, ३, असां ७, ३, -विदे
 आपथी १३, ७, ७
 विद्या मत्त-स्नातक- क पाए
 २, ५, ३२, ३५ गीष्ट ३, ५, २२,
 जैष्ट १, १९, ३०
 विद्या-मत्तदान- ने आपथ २, ५,
 १८, हिष्ट २, १, १००
 विद्या-सयन्ध- न्धे गीष्ट १८,
 १८
 विद्या स्थान- नम् या १, १५
 विद्या स्नातक- क पाए २, ५,
 ३२, ३३, गीष्ट ३, ५ २२, जैष्ट
 १, १९ ३०,
 विद्या-क्षीन- न गीष्ट ६, १८
 विद्यो(वा-उ)पयोग- ना गीष्ट
 ७, १
 विद्वांस- वा ७ १, २६, पाग ५, ४,
 १८, -दुप वीथी ७, ३ ५^१, वाय,
 कौम् ७, २^१, -दुपा वाधुथी
 ३, १७ २०, १९ १२, वैथी,
 -दुपाम् कप्र १, ६, ११, अत्र,
 -दुपे आपथी १३, ७, १०, २७,
 २९, २^१, वाधुथी, -द्विजि कप्र
 १, ३, १, १, अत्र, -द्विजि अत्र

१, ४२, १, -द्विजि अत्र ७०, १,
 ८, -द्विजि आपथी ३, १२, १^१,
 गीष्टी, नूदे ७ ११२^०, -द्विजिम्
 आपथी १७, १३, ७, हिथी,
 -द्विजिा नम्रा १६, ४०^१,
 -द्विजिा नम्रा १३, २३, १६,
 २०, -द्विजिा नम्राथी १, १२, ३६,
 २, २, ३, ३, ७, ११x, वाथी,
 आपथ २, १, ३^१, आप १, १०,
 २३^१, १७, १०^१, कौष्ट १, २१,
 १२^१, वांष्ट १, २८, १५^१, पाए
 २, १, ११^१, आमिष्ट
 विदुषी- वीकौम् १०१,
 २
 विदुष- वा ५ ४, ३८
 विदु(स्)>ए-य(<ठ)र- रम्
 तैसा ६, ५^१.
 विद्वांस- गान् वीध ३,
 ३, ६
 विद्वांस-गोय- गानि वाध ३,
 १२
 विद्वांस- वम् कप्र ३, १०,
 १२
 विन्दु- वा ३, २, १६६
 विन्दु- सा अत्र ६८, ५, २६, ६२,
 ९, २
 विन्दु- पाग ६, १, १९९
 विन्दु- द्वाथी १०, ७, २८,
 ९^१, वाथी १६, २, ६ ९x,
 वीथी, वाध ६, ४३x, आपथ
 २८, १०, वीध १, १, ६x, वीध
 २, १२, ४, हिष्ट २, १, ११२, गीष्ट
 १ १x, -द्विजिाथी १५ १६,
 ६, वीथी १७, २९ १, आप
 १, २२, २^१, पाए २, ५ ३३,

३४, ६, १, आमिष्ट, वाध
 १, ४, ५x, अत्र ७७, १५८,
 विष्ण २८, ३x, वीध १, ३,
 ३x, गीष्ट १२, ४, या १, १०^१,
 २०, -द्विजिाथी १, ७, ४, २१^१,
 -द्विजिाथी १, २२, २१^१, पाए
 २, ४, २, आमिष्ट १, १, २
 ४२^१, गीष्ट ७१, २१^१, माष्ट,
 -दा आष्ट ३, ४, १, ११, १, कौष्ट
 २, ५, १, वांष्ट १, ३, वीष्ट, शय
 ५, २८७, आपथ १, १, २, २३,
 १०, गीष्ट १, २, ५^१, विष्ण
 २८, ७३, ३६, ७, हिष्ट १, १, ३,
 २, ५, १६३, वाध ६, ३, ४,
 २५, १०, सुध २, -द्विजिा
 विष्ण ५१, ६७, -द्विजिाथी
 १६, २, ३१, सु, -द्विजिा
 वीथी २७, ४ २, वाधुथी ७,
 १०३^१ ५, कौष्ट, -दाय
 अत्र ७३, १, १०, -दे वाथी
 १५, २७, १, वीथी १६ ६
 १७, जैथीरा २ कौष्ट २, ७,
 १७, वांष्ट, -देन वाष्ट १, १,
 ३, ४, कौष्ट ३, ७, ५ वांष्ट
 ७, ५ ३, जैष्ट १, १२^१ ६,
 -द्विजिाथी कौष्ट ३, ७, ८, हिष्ट
 २ १९, ६, आपथ १, १, १०^१,
 विष्ण ५५, ११, हिष्ट २, १,
 १०^१, वीध ७, १०x, -देन
 माष्ट १, १० ८, ९, जैष्ट
 १, १५ १, कप्र ३, ८, १४, वीध
 १, २, ७, ३, ५, ८, गीष्ट
 २६ २३, श्रुता १, १८, -द्वि
 आपथी २७, १, ३, वाधुथी
 २, ४ ३x, हिथी १, १, २,

a) उप इति प्र (वा ३, २, १३) । b) यथा वै १, ५१, ३ विदुषी इति पाठे ? । c) उत्तरेण
 विधिराजं । d) पाठे वैप २ विद्वांसु वी ६, ६८, ३ टि प्र । e) विद्वांसु इति जीव । f) वैप १६ ।
 g) प्रवरणात्] अर्थ १ ।

-दौ बौधौ १६, ६ : १८; वैष्ट
२, १२ : २०; वाध.

वैदिक^१ -कम् कप्र १, १,
१७; अथ २३, १४, ५; विध ३०,
४३; शैशि ३२७; मीस् ७, ३,
३०; -कात् कप्र २, २, १;
-कानाम् द्विथी ३, १, २; वृदे
१, ४; २३; मीस् १२, २, ३;
-कानि बौध २, ६, २८; -के
मीस् ३, ४, २८; ३३; -कैः
अथ २१, १, ८; ७०, २, ३.

वैदिक-लौकिक-कानाम्
पाठ २, १७, ९.

वैदिका(क-अ)सि-सिस्
कप्र ३, १, ९.

वेद-कर्मन्-मैणा वाध २८,
१; -मार्गि बौधौ २, २ : १७.

वेद-कम-मः कौशि ६२.

वेद-सङ्ग-धर-राः बौध १, १,
१४.

वेद-स-लान् कामिष्ठ ३, ३,
१ : ७.

वेद-ज्ञान-प्रयोजन^२-नम् कौष्ट
३, १२, ३१.

वेद-तत्त्व-त्वेन अथ २, १,
७.

वेदतत्त्व-प्रका(शक) > सि-
का-काम् कौशि ८१.

वेद-तत्त्वा(र-अ)र्थ-गिज्ञान-
नम् वृदे ७, ११०.

वेद-तत्त्वा(र-अ)र्थ-विद्-
-वित् विध ५१, ६५.

वेद-मुद्रण-त्वात् मीस् ६,
२, २४.

वेद-त्रय-वम् अथ २, १, ७;
-वात् विध ५५, १०.

वेद-दक्षिणा^३-आम् आपथ १,
७, १९; द्विध १, २, ७६.

वेद-ध्वनि-नौ विध २२, १५.

वेद-नागधेय-मृदम् आपथौ
२४, १, ३१; द्विथी १, १, ७;
बौष्ट २, ६, ३.

वेद-निन्दा-न्दा विध ३७, ४.

वेद-निर्देश-भाव मीस् ६, १,
३३.

वेद-पर^४-राः शंष १२९.

वेद-पवित्र-ज्ञानि शंष १०६.

वेद-पाठिन्-ठी माण्ड १, २,
१०; वाण्ड ६, ३४.

वेद-पाठ^५-दः विध १, ३.

वेद-पारण-न्यः विध ३०,
४६; ८३, ५; चय्यु २ : ३६;

-गम् वाध ११, २९; चय्यु २ :
३०; -गाः वाध ३, ७; -गान्
अथ १९, ५, २; -गे अथ ४, २,
११; विध २३, ४.

वेद-वित्-वरम् वृदे ५, ५८.

वेद-गुण्य-प्येन विध ५५, १२.

वेद-प्रदान-नात् वाध २, ४.

वेद-अप^६-पद्भिः कौस् ३, ४.

वेद-फल-लम् अथ २, ४२,
८; शैशि १५९; मासि ३, २;
यासि १, २६; कौशि ५३.

वेद-यत्न-लम् वाध २७, ४.

वेद-ग्रहण-वम् आण्ड १,
२२, ३; पाण्ड २, ५, १३; भाण्ड
१, ९ : १२; जैष्ट १, १८ : १;
बौध १, २, १.

वेद-मान्य-विपश्चित्-श्रितम्
अथ २, ४, १; -श्रिता अथ २,
६, १.

वेद-मय-न्यः शुभ्र ४, २१५;

-यम् वाध ६, २६.

वेद-मित्र^७-त्रः श्रुषा १, ५१;
-त्रम् कौष्ट २, ५, ३.

वेद-मूल > ला^८-लाः शंष
२.

वेद-योग-गात् वाधौ १, ८,
२९, ४, ९, ६.

वेद-रहस्य-युक्त-कम् अथ
३, ३, ८.

वेद-लोक-कयोः अथ ४७, १,
११.

वेद-वत् मीस् ६, २, १७.

वेद-व्याद-दः शंष २८८.

वेद-वादिन्-दिभिः उनिम् ८ :
३६.

वेद-विक्रय-यम् बौध १, ५,
५२; -वे अथ ३८, ३, ४.

वेद-विक्रदिन्-विणम् बौध १,
५, १२२; -धी शंष ३७७ : १४.

वेद-विज्ञान-नम् मैत्र २.

वेद-विद्-वित् अथ ६७, ८,
१; विध ५५, १२^९; बौध २८,
५१; शैशि ३५१; ३५३; -विदः
शाण्ड ४, १, २; ४, ४; अथ ५३;
२, ३; ६९, ९, १; ७०^१ ११, ३०.

बौध १, ४, १; वैध १, ४, २; गौष
९, ६२; यासि १, ३१; -विदे
वैथी १६, ८ : २; द्विथी १०, ४,
७३; -विद्विः अथ १९^१, ४, ३।

-विद्विभ्यः साध १, १.

वेदवित्-वाम-मः बौशि
४१, ५३; -माः अथ २१, १, ४;
८; विध २२, ९०; -मैः कौशि
६६.

वेदवित्-समवाय-वचन-
नात् बौध १२, ४६^९.

७) विप. (धर्म-प्रश्न) । तत्रमरास्ये लम् प्र. । ४) वत्. > वत्. । ८) वत्. = २दक्षिणा. । ८) वत्. । ९) = वराह-
म्य. [विष्णुः] । १) वत्. = मन्थ- । १) वत्. । १) विद्विभ्यः इति जीर्ण. । १) वत्. विद्विः <> विद्विभ्यः इति धर्म. ।

वेदा(द-अ)ध्याय^३- पावाग ३,
२,१; -यः आपघ २,८,५; हिघ
२, १, १०७; -यम् आपघ १,
२४,६; हिघ १,६,५५.

वेदा(द-अ)ध्यायिद्- -वी काय
३,२; आपघ २,१७, २२; हिघ
२,५,५०.

वेदा(द-अ)लुचन- -नात् गौघ
१,१२.

वेदा(द-अ)लुशासन- -नम् वैघ
२,१७ : ६.

वेदा(द-अ)न्त^४- -न्ताः वाघ २२,
९; वीघ ३,१०,११; गौघ १९,
१३.

वेदान्त-क- -कम् (गिम्)
वेघ २,१ : ३८.

वेदान्त-ग^५- -गाय अघ ९,४,
६.

वेदान्तग-सुघ- -त्ताघ
अघ ९,४,६.

वेदान्त-पातग- -नाम् वाघ ३,
१७.

वेदा(द-अ)न्यत्व- -न्वे मीघ ३,
७,५१.

वेदापि पावा ३,१,२५.

वेदा(द-अ)भियुज- -सः वीघ
१२५,२; अघाय २,६.

वेदा(द-अ)भ्यास- -सः वाघ
२७,७.

वेदा(द-अ)रग्म- -रग्मे कौत्
७२.

वेदा(द-अ)रग्मण- -जे माघ
१,४,१८.

वेदा(द-अ)र्ध-निपुण- -णाः
आमिघ ३,१०,४ : २१.

वेदा(द-अ)र्थ-शास्त्र-ज्ञ-
-ज्ञान् अघ ७०,१०,५.

वेदा(द-अ)हृति- -तिभिः जैघ
१,१२ : १७; -तीः वीघ ३,१,
८;२,१;२२;३४;४७;३ : ११.

वेदे(द-द)विदास-धर्मशास्त्रा-
(ज्ञ-अ)र्थ-कुशल- -कम् विघ
३,७०.

वेदे(द-द)म्बन-समुच्च- -देघु
वाघ ३०,६.

वेदो(द-उ)क- -कम् अघ २३,
१३, ४; १४, ४; -कानि काघ
४१,१९; या १४,८.

वेदो(द-उ)त्तम- -मैः अघ
४६,२,४.

वेदो(द-उ)दित^६- -तम् वाघ
२७,८; -दानाम् विघ ५४,२९.

वेदो(द-उ)पदेश- -शात् मीघ
३,७,५१.

वेदो(द-उ)पाकरण- -गम् वैघ
२,१२ : २३.

वेदन- -नम् वीघो २, १:७;६:४;
अघ ६८,३,३; -नानि या ६,७;
-ने या १,७; -नेय या ३,१२२.

वेदय- -या ३,१,१३८.

वेदितव्य,स्या- -व्यः वाघो ३,१३;
१; घृदे १,८०; -व्यम् वाघो
३,३४ : ४; द्राघो ५,४,८; ११;

आपघ; या १४,९; ३२; -व्याः
विघ १६, १७; द्रघ २, १३;
४,१५३; -व्याभिः या २, २१;
१३,१३.

वेदि(त>)ता- -नाम् दाघ ४, ४,
२१.

वेदितुम् घृदे १,८०; या १,८.

वेदितु- -तुघु या १,१६; १३,१२.

वेद्य,घा^७- -द्यम् आघो ५, १२,
११; वीघ २, १०,३५; -घाः
शुघ ४, १५७; -घ्याय^८

आपघो १४,१७,१; वाघो १,४,
१,६; -घ्याभिः या २, २१;
१३,१३.

विद्^९ पाधा. दुवा. उम. लामे,
पुंभवेः माघो २, ३, २, २५;
हिघो ८,१,८०.

विदित् वीघो १५, ६ : १३; १;
पुंविदाः वाघो १७, १२, ५;
वाघो ४, १०० : ७; १८;
२८; २; हिघो; विदाघ या १४,
१०; पुंविदेय आघो १,१०,
३; ११,१; आपघो ४, ८, ५;
१३, ६; वीघो ३, २० : ५;
३० : २; ७; ६, १२, १३;
२०, २४ : ३; माघो ३, ९,
७; ४, ११, ४; १९, १; २;
वीघो ७, ८; २; हिघो ६, २, १७;
३, २२; द्राघो ९, १, १६; ताघो
३, ५, १५; पुंविदेयम् वाघो
१, १५, १२; आपघो १६, २९,
२; वीघो २, १ : १०; वाघो १,
१, ४, ९; ३, ७, १६; वीघो १८,
२० : ३; हिघो ११, ८, ४;
आमिघ १, ५, २ : १३.

विन्दते पुंवाघो १५, १७, १; १९,
१; वीघो; विन्दति पुंवाघो १५,
१९, १; आपघो; पुंविन्दतीं वा
९, ३१; आघा १, ३१; वीघो २३;
विन्दन्ते आपघो १३, १, ५; हिघो
१८, १, ६; विन्दन्ति वीघो १५,
१ : ७; १६, १९ : ११; २५.

a) = वेदाध्यायिन् । b) घस. । c) उप. < √ गम् । d) उप. < √ वृ । e) वैघ १ द. ।
f) पाघे. वैघ १ घृदाय ऋ ५, १५, १ टि. द. । g) वा ७, १, ५९ पावा ३, १, ८६; घ, १, १५७ पराघः द. ।
h) परसरं पाघे. । i) सहरं पाघे. १ १५५० ० द. ।

१२ २, अण ४१, ३, ३,
 विन्दामि सु ९, १, या ६, १८,
 विन्दान्ने वाप ५, ८^१, विन्दत्
 माथी २, ५ ५, २८^१, विन्दत्
 माण १, २१, १०^१, विन्दित्त
 आपथी २, ११, १०, वीथी,
 विन्दन्तु आण ३, १०, ११,
 विन्दत् वीथी १८, ४४ १०,
 आस १, १३, ३^१, विन्द
 काथी २, ८, १४, आपथी
 २, १०, ५x, ९, १६, ७^१,
 वीथी, विन्दित्त आपथी १,
 १, ४, वीथी, विन्द्यावै साण
 १, ७, १९, कौण, विन्दित्त वीथी
 १८, ४२ ४, या ७, १९^१, वृदे
 ५, १९, विन्दित्त आपथी ५,
 १, ७^१, वापथी, विन्दित्त
 द्विथी ६, ३, २, निद्, विन्दित्त
 आथी ९, ७, २२, आपथी, माथी
 १, ९, १^१, विन्दित्त आपथी ९, ३,
 ५, ७, ९, ११, १६, ७x, वीथी,
 विन्देपालाम् माथी ८, ६ ७^१,
 विन्देताम् वैथी ८, ११ २०,
 शम ३०८, विन्दित्त आपथी
 १४, १४, ६, २०, ८, १x, ४,
 द्विथी, विन्देयु आपथी २१,
 ९, ४, ५, वीथी, विन्देव, > वा
 वीथी १३, २४ ९, १८, ४१
 २, ५, आण १, ७, २२^१, वीथ,
 विन्देयम् माथी १, ४, ३, १^१,
 विन्दित्त द्विथी २, ७, ३०^१,

वापथी ३, १०x ११, द्विथ २, ११,
 ४^१, अण ३७, १, २
 विविदे वीथी २४, १३ ९, आस
 १, ३, १^१, पाण १, ४, १६^१,
 आणित्त १, ५, ३, १४^१, काण २५
 २२^१, वीथ, विवेद कौण ८१, १५,
 विविदु आपथी १, ६, ४,
 २, १, ३, वीथी, वेत्ता वापथी
 ४, ७५ २७, विदेद अण ३,
 ४, ७^१, विविदत् माथी ८, ६,
 ११, आपस २, १२, ९^१, पाण
 ३, ३, ५^१, वा ५ ३, विविदत्
 काथी २५, १२, ४, आपथी २,
 २०, ६^१, १२, १५ ६, १४, ३०,
 ३ २२, ५, ६, माथी २, १९
 १^१, वैथी २१, १६ ७^१, द्विथी
 २, ५, ४x, शुभ, विविदत्
 आपथी ७, ७, २, वीथी,
 विविदत् आपस २, १६, ४,
 माण २, ७ १४, विविदत्
 वीथी ४, १ १७, वापथी,
 विविदाम् काथी १०, ९, ८,
 वीथी ८, १८ १, माथी २,
 ५४, ४०, वा ६, २८^१
 विवेद माथी १०, ९, २^१
 वेदपति द्विथी १३, ५, ४
 विवि, चा^१ - वित्त आणित्त १, ५,
 ४ ४१, माण १ १७ १५^१, वा
 ५ २, २६, ८, २, ५८, -त्तम्
 आपथी १, ९, ५^१, माथी ४ १६,
 १०^१, आपथी, -त्तस्य लाभे

९, १, १८, वीथ २, ९, ८^१,
 -त्ता अण ३, ४, १^१, भावि
 १११^१, -त्ता द्विथी १४, २,
 ४३, ६, १०, २८, १७, १, ११,
 -त्तानि आथी १०, १०, १०,
 -त्ताम् आपस १, १०, २^१,
 -त्तेन गौण ४, ११
 विच क्षम- वे अण ७२, ३, ५
 विच धन- --न वा ४, ४
 विच पशु- शूत् अण २२, ५, ३
 विच वन्दु कर्म-जाति विद्या
 वयस्- -पति गौण ६, २०
 विच वत्- -वत् आथी २, २, १
 विता (त अ) माव- -वे विच
 ५२ १०
 विता (त अ) न (>) श्री-
 -नी आपथी ७, ३ १४, वीथी
 विता (त अ) र्थे-> र्थित्- र्थी
 अण २६, ५, १
 विधि- पा ३, ३, १६, -विधि
 आथी १, ११, १, माथी, -विधि
 माथी २, १३, ६^१, कौण २०,
 १९, -विधि आपथी १६, २९,
 ३, वैथी १८, २० ३०, द्विथी
 ११, ८, ४
 विधिवा आपथी ७ १६ ७^१, वीथी
 १ २१ ३१^१, ४, १० २४^१x, ४,
 माथी, शुभा ६ २६^१
 रविदत्-> विदत् अण- >
 वेददेवि- धिन्माम् निद्, २,
 ९ १०^१, -थी अण २, ५,

a) पामे वैप २ ३x विन्द तेजा ३, ७, ९, ७ टि द । b) पामे वैप २ ३x अथेवन् तेजा २, ७, १७, ३ टि द ।
 c) पामे वैप १ विन्दस्व शी ३ २३, ४ टि द । d) पामे सु १७९० ह द । e) परस्पर पामे । f) सहत पामे
 सु १५५० ह द । g) पाठ २ (तु वापथी १, ९६ विद्या इति पामे [१७९० ह अणित्त १]) । h) = तथा ते
 २३, ५ तेजा २, ५ ६, ३ । औ २, १०, ७ तु अणित्त इति पामे । २) = तथा ते ४, ३, ११, ४ । मे २ १३, १० तु अणित्त-
 इति पामे । १) पामे वैप १ विदत् शी १, ३०, १ टि द । k) निर्विषम पाठ २ पामि शोच । l) विप, नाप (पन) ।
 m) पामे सु २०१९ टि द । n) = तथा ते ६ २, ७ २ । मे ३ ८, ५ तु विता इति पामे । o) पामे वैप १,
 १८९९ h द । p) वत् । q) वैप १ द । r) पामे वैप १, ७५१ द । s) वेदत् इति पाठ १ पामि शोच ।
 वैप ४ प्र १३

६१; वृदे ५, ६२; -श्री शाश्री
१६, ११, ८.
√विदद्-वसु^१-सुः आश्री ५, ५,
१२; ६, ७^१; शाश्री; या ४, १७;
-सुम् आश्री ५, १६, ३; ७, ८, ४;
-सो या ४, ४.
√विदान-नः आश्री २, १७, १०;
हिश्री २१, १, १; अया;
-नाः आश्री ५, ५, १९; आश्री
७, १७, १०; आपश्री १६, २९,
१^{१०}; वैश्री^{१०} १८, २०: ७; ९;
हिश्री ११, ८, २^{१०}; -ने अया
३, ४, १.
विद्-पा ३, १, १२८; -न्दाय काय
४, २०^{१०}.
विन्द-न्दन् वैय ५, १: २७.
विनिस्समान-नस्य छुम् १, ३:
१६; निम् २, ४: १२.
विपिदिक्स-, विविद्धस्-पा ७, २,
६८.
√वेत्तवै^१ आपश्री ९, २, ३; आश्री.
२विष्-न्ता आपय २, १३, ६;
वौय २, २, ३६; हिष २, ३,
६; वाष १७, १^{१०}.
वेस्यत्-नस्य वौश्री १, १: ८;
२: ८; ४, १: १५; १७, ११.
२; २०, २: २१.
√विद्^१ पाषा. दिशा. आराम.
सतायाम्, विचते शाश्री १, २,
२०x३; आपश्री; माशि १३, ५१.

विचते हिश्री ७, ८, ३; विचते
आपश्री ३, १७, २; २, ११, १२; १०,
४, १२; १३, १, ४; वैश्री; विचते
शाश्री १७, १, ५; १८; ५, ४;
आश्री; विचते आपश्री ५, २९,
४; वापश्री ३, १०-१: ३; वैश्री.
विद्यमान, ता-नम् आश्री ४, ८,
१; वैश्री २४, ३१: १; निव;
-नस्य निम् २, १: १९; -नाम्
निम् २, १२: ११; ऋप्रा ६,
५१; -नासु विध २६, १; -ने
शाश्री ३, २०, ७; वौश्री २९,
८: २३; वापश्री.
विद्यमान स्व-न्यात् पावा ३, ३,
१३३; नीत् ३, ३, २९; ४,
२; ४, ४, ३२; ५, ३, २४x४.
विद्यमान वद्->त्-स्व-
-न्यात् पावा ८, १, ७२.
विद्यमान-सयोग-नात् मीम्
३, ८, ३३.
विद्यमानो(न-उ)पलम्भ-ग्मात्
मीम् १, १, ४.
√विद् पाषा. ल्या. आधा. विचारणे >
२विच-विच-पा ८, २, ५६.
विद्-विद्-√विद्(लाभे) द्र.
वि^१दंश् > वि-दस्य पाय ३, १०,
२४; विष १९, ८.
१विद्^१ मस २०, ७३.
वि द्मन्-वि^१दह द्र.
विदपण^१-अवा: वौश्रीप्र ३१: ५.

१विदत्-√विद्(लाभे) द्र.
२विदत्-√विद्(लाभे) द्र.
विदथ-प्रय. √विद्(लाभे) द्र.
१विददर्श^१ वापश्री ४, ५५: ४.
विददद्य-व्यसु-√विद्(लाभे) द्र.
विदधत्-, घान-वि^१या द्र.
विदन्वत्^१->वैदन्वत्-ने लाश्री
७, १, १३.
विद-भृत्-√विद्(लाभे) द्र.
वि^१द्वत्(बधा.)^१, √विदयते आश्री
७, ८, २; शाश्री १८, १२, ६,
वैताश्री २७, १५x४, वा ४, १७^{१०}.
√विदयमान-नः या ४, १७.
१विद्यामि^१ अप्राय ३, ४.
१विदर्भ^१-नाः अप ५६, १, ५; -नांद्
अप ५०, १, ५; -नांय कौट ४,
४, १^{१०}.
वैर्भ^१-नांय कौट ४, ४, १^{१०}.
२विदर्भ^१->वैर्भ^१-भिः अप
११, ४.
विदर्भि^१-भिः छुम् २, ४३९.
वि^१द्व^१->√विद्व^१-नांय^१ आपयं
२, १७, २७^१; शिष्ट २, १६, ६^१.
√विद्वन्^१-न्यांय^१ पाय २, १४,
५; भाष्ट २, १: १६
वि-दार्थिस्या वि^१द्वत् द्र.
१विदल^१-लम् वौश्री २५, ४: ५.
१वेदल^१-ल. वौश्री २६, २२: २०.
वेदल^१-काद् वौश्री २५, २६:
११.

a) वैच १ द्र. । b) एस्तरय वाठ ३९, २ दधाना इति, अन्वय दुहाना इति च पाठे. । c) = देवता-
विशेष- । d) पाठे. वैच १, ११५२ b द्र. । e) लेषा इति पाठः इति मनि. शोचः (द्र. आपय). । f) पत्ता १,
२, १ पराश्रयः द्र. । g) विमदः इति शोचः (द्र. ऋष २, १०, ११). । h) व्यप. । i) पाठः इति वै, ददर्भ इति शोचः
(द्र. वृ ११ i) । j) = साम-विशेष- । k) देवपामि इति संस्कर्तुं टि. । l) = देश-विशेष- [अप], = संस्-विशेष-
[कौट]. । m) सधा. शांष्ट ४, १८, ३ विदार्थिस इति पाठे. । n) अश्रये अश्र प्र. । o) सधा वैदर्भाय <>
वैदर्भाय <> वैदर्भाय <> वैदर्भाय इति पाठे. । p) अश्रये अश्र प्र. । q) = [एषा-रहित-] सर्व-विशेष- ।
यत्. (द्र. P.W. प्रय. विद्वन्- इति). । r) अश्रये अश्र प्र. (वैष्ट अश्र. [एषे] < विदर्भि- इति). । s) निव.
(विदत् विचारणं) इत्यन्- । t) विचारणं प्र. । u) विचारणं छुम् प्र. उत्ते. (पा ४, २, १५७) ।

रविदल- > र-सूय- येन वा १, ३०, १.
 रविदल- > रवेदल- -०० ल वेध ४, १, २.
 विदल-वध वेध ४, २, ०.
 वि/वस, विदस्येत् या १०, ३.
 वि-दस्त- > प्त-तर- -रम् या १, १.
 वि/वह, विदहः काश्री ६, १०, १९; वीष्ट ५, ३, २८; आसिष्ट ३, ६, १:१; ७, ४:१२, वीषि. वि-दग्ध, ग्वा- पाग ४, २, ८००, ५, १, १२४^१, -ग्ध. वीश्री २४, २६:८१, -ग्धम् वीश्री २०, १६:५६, माष्ट ३, १८ १८, -ग्वा नाशि २, ८, १७०.
 वेदग्ध- पा ४, २, ८०.
 वेदाग्य- पा ५, १, १२४.
 वि-दह्य- -ह्य आपश्री ५, १२, ३०, वीश्री २ १६:५४^०, द्विथी ६ ५, १४^०, कु १७, २.
 वि-दहमा(न>)वा-ना आपश्री ८, १२, २०, माश्री ८, १६, १३, वीश्री २ ५० ४^२.
 वि दहिव्- -हि वीश्री २२, ३, ३, काश्री ८, ५, ५.
 विधि पदव- -व्यद् आसिष्ट ३, ५, ७-२५, वीषि १, ७:२.
 वि/दा(गने) > वि-देय- -यम् आपश २, २५, ९; द्विध २, ५, १८८.
 विदान- ✓विद्(लाभे) द.
 विदारी- पागम ५७, -यां

शंघ २२०.
 विदार्थ- -यां शां ४, १८, ३१.
 विदार्थ- -यां शां ४, १७, ३१.
 विदिपय अग ६८, २, ३०.
 विदित- , विदित्वा ✓विद्(ज्ञाने) द.
 विदिदिहीविकीदी वीश्री २६, ११: २१.
 वि/विम्, विदीम्नो आपश्री १८, १९, ३, वाश्री ३, ३, २४, विदीम्नित् वापश्री ३, ९१, ३, द्विथी १३, ६, २९, विदीम्नोयु वाश्री १, ४, ४, १२.
 वि-देवन- -नाय वेताश्री ६, १०, अत्र ४, २८.
 वि दिश- -दिक्षु अग ६२, २, १, ६४, २, १०, -दिग्भ्य. अशां १४, २१, -दिश वेथी ८, ७ १०^१, द्विथी ४, ५, २४^१, जेथी ११ ८^१, अग ७०, ९, ४, अशां १४, १, -विशाम् अग ३६, १, ६, ११, ४३, २, ४८, -विशाम् अशां १४, २, -दितो शां १, ७, ३, -दितो वीश्री १, ८, ४२.
 वि-दिशा- -शयोः वीष्ट १, ३, २.
 विदीग्वा- -ग्वः आपश्री २०, २२, १३, वीश्री २६, ११ २१, २२, द्विथी १४, ५, ९, -यम् वीश्री १५, २७-८.
 वि/दु > वि-द्व्यमान- -ने गोष्ट ४, ९, ७.
 विदु- पाठको २, १, १९, -दु द्विथी २१, ३, १०^०.
 विदुर- ✓विद्(ज्ञाने) द

विदुः/विदु आ ३६, १, १४.
 वि/दुप्, विदुष्यति विध २४, ४१.
 विदुषः मा ३, २१^१.
 विदुषु या ३, २.
 वि दुष्ट- > *ष्ट-पर्या(य>)वा- -या विम् १, १०: १९.
 विदुष- ✓विद्(ज्ञाने) द.
 रवि दूर- -रग् आ १^१, १, ५^१, -रुपे शाश्री १, १, २५.
 रविदूर- > वैदूर्य- पा ४, १, ८४.
 विदुलक- -कम् अग ७२, ६, ४, ५.
 वि/दृह > वि-दृह- -वा वीश्री १८, १३: ९.
 वि/दृह > (वि)अदृहम् वाश्री ३, २, १, ६०, पाठ ३७, ५, वि " अदृहम् आपश्री १६, १३, १; द्विथी ८, ४, २७, ११, ४, १३, (वि)अदृहम् काश्री १२, ३, २; वीश्री १८, १०: ८.
 विदुष्यति वीश्री १, १४: ७, विदुषोयद् माश्री ५, १, ६, २१.
 वि इशंथित्वा आपश्री १५, २०, ९.
 वि/दृ, वि (दृ) अग २, ६, २०^१ विदुषोयद् माश्री ६, ४, ६.
 विदुष्यत्/विदुष्यत् अग ३६, १, १२.
 वि दारण- -जे पावा ३, १, १०४.
 वि दार्यं वीश्री १२, ५ ११, द्विधि ४, १.
 वि ती(र्त्तं)र्त्त- -र्त्ताम् माश्री ६, १, २, २४.
 वि देश- -ये कौष् ८०, २३.
 विदेश-मरण- -जे कत्र ३, ४, २.
 विदेश-यात- -ये आश्री ७, १०.

a) नाप । यस । b) व्यप । c) अर्थ. २ । d) = बहुर- । e) पागे वेप १ वितुष्व वी १२, २, ४५ द्वि. द । f) अधिपारणे प्र इति मायम् । g) = श्लेषवि-विशेष- । h) = वि दर्श- । पागे ५ २२१४ m द । i) वैदु इत्थ. विदुषोय इति, अत्र. [पथे] विदुषोय इति । j) अत्रले प्र. । k) पागे २२१४ ० द । l) वेप १ द । m) = वि-दिश- । n) यस । o) प्राप्त । p) विधि. । तया. वै २, २४, १ अतिदूरम् इति पागे । q) = विदुर- । r) = वैदूर्य- । s) परस्परं पागे. ।

विदेश-स्थ- -स्थम् आद्य १, १२,
२, -स्थे आशिष्ट ३, ६, २ १५
विदेह- पाण ४, २, १२७, -वेधु
वीथी २, ५ १८१
वेदेह- ह आश्री १६, ९, ११,
वाधुश्री ३, ४० १, वृदे ७, ५९,
-हृष्ट वृदे ७, ५८, -हा वीथीप्र
४४ १.
वेदेहक- पा ४, २, १२७
विदेहो(ह-श्री)दुम्बर- रम् अप
५६, १, १०.
विद्ध-, विद्वा √विद् (ताडने)द्र
विघ्न- √विद् (ज्ञाने)द्र
वींविद्यो आश्री २, ३, १६, आश्री २
७, १८, ४, ८, ३, आपश्री ४,
१, ६, ६ ५ ३, ९, ३, १९ १३, १९,
वीथी १९ ५: १६, माश्री ६
१, ५, आश्री १, ५, ४, २, हिथी
३ ७, ६२, २३, २, ४९
विद्यमान- √विद् (सत्तायाम्)द्र
विद्या- प्रम् √विद् (ज्ञाने)द्र
विद्या^० आश्री २ ७, १८, ४, ८, ३
विद्युत्, विद्योतते वाधुश्री ३, ३८
३, ४, २७ ७, १३, १४××, वेताश्री
१४, ११, अश्राय, विद्योतित
आपध १ १२, ५ हिम १, ४, ५
व्यधौत् आपध २, ११, ३११
विद्युत्- पा ३, २, १७७, -द्युत्
आश्री २, ३, १६१××, आश्री,
वाश्री ४, १५, ५१××, ऋषापश्री
४, १, ६१×, ६, ५ ३१×, ३, ३१×, १९,
१३, १९×, वीथी १९ ५ १५१×,

माश्री ६, १, ५१×, वाधुश्री ४, २७
७, १२, १८, वाधौ १, ५, ४,
०१×, वीथी २, २ ८१×, ऋषिथी
३, ७, ६२×, ६, १, २४××,
अपध ८ १०४१×, वा ३, १११, १,
११, ३९१×, -द्युत्. आश्री २,
१५, २१, वीथी २५ ३० १,
निसू ३, ९ ५१, आद्य २, ४,
१४१, आशिष्ट, -द्युत्मा आश्री
४, ५, १०१, वीथी १८, ४५.
१, अश १, १४, अश ३, ४, १,
-१द्युत्वा आपश्री ४, १५, १, आश्री
४, २१, १, हिथी ६ ४, १८,
वेताश्री १४, १, कौसू १४१ १७,
अपध-द्युति वीथी २, ५ १२१,
१८, ४५: १०, वीथ ३, १, १६,
कौसू १४१, ३६, अश, -१द्युते
कौसू १३९, ८, वृदे १, ५४,
-द्युती ४ २४, २, ३, -द्युति
अप ६५, २, १०, वृदे १, १४
वेद्युत्- -त वीथी २४, २६-
१५, २६ ६ १६१, वा ७,
२३, -तम् अप ७०३, १७, ३,
वृदे ८, ४४, अश १, १४, वा
१४, ९, -ता आश्री २०, १४,
६१, -तात् काश्री २५, ४, ३३,
माश्री ६, १, ३, २७, वा १४, ९,
-ते वृदे ३, ७७, अश १, १४,
-तेज आश्री ३, १३, ८, वीथी
३, ४, ७, आपश्री ९, ३, २२,
आश्री ९, ५, १५, हिथी १५,
१, ७२, कश २, १, १४

विद्युत् काल- ल वाशि १,
१०
विद्युत्-का(त>)व्य- -का
वाशि २, ३, ८
विद्युत्- -व्याय वाश्री २, २,
३, ४१
विद्युत्-स(म>)पा- -मा वीथ
१६, २७
विद्युत् स्तनविन्दु प्रथित- वेधु^०
गोए ३, ३, १७, द्राए ३, २, २६
विद्युत् स्तनविन्दु-वर्गम् द्राए
३, २, २३^०
विद्युत् स्तनविन्दु-वर्ष- वेधु
कौए ३, ९, ४०, माए १, ४, ११
विद्युत् स्तनविन्दुवर्ष वर्गम्^०
कौए ३, ९, ४८, द्राए ४, ७, ५३
विद्युत् स्तनविन्दु-वर्षा- -वर्षा
शोए ४, ७, ४०.
विद्युत्-स्तनित- -ते वीथ ४, ४,
१२
विद्युत्-स्तनित-वर्षा- -वर्षाव्य
वीथ ३, ९, १४
विद्युत् उरवा- -हृको वीथ
१४१, २४
विद्युत् गण गवाक्षक- -कै अ
६४, १, ८
विद्युत्-दग्ध-कृत- -ते विप ७०,
९
विद्युत्-द्वैतन- -नम् अ ५९, १, २
विद्युत् च(<हत्>)पा- ताए
वेधौ १२, १४ ५
वेद्युत्पती- -वी

a) वाप (देश- वा तद्वास्तिर वा) । b) विदेह-राज वा प्रावि विशेष वा । c) समाहारे द्रव ।
d) विघ्न (<व्यम्) इति शोष (तु सभा वाधौ ४, १५, ५ वृथ इति पाभे, C. न, वैह मा प्रथ (तैत्रा)<
विद्युत् इति) । e) √व्यध (वेधने) + कर्त्तरि यणुक् प्र उत्त (पाठ ४, २)> √विध्यत्-> [प्र १] व्यध इति शोष
(तु सभा तैमा ३ १०, ९, २ आश्री प्रम् [प्र ६] विद्युत् L = √विद्युत् इति पाभे) । f) वैप १ ६ । g) पाभे
० टि द । h) = वज्र- । i) वास्येतेतदार्ये प्र । j) स्वायं प्र । k) तु अन् । *ते इति आ पाठ १ ।
l) मत् । m) उप = दुस्य- । n) परस्परं पाभ । o) परस्पर पाभे । p) = [विद्युत्तश] समिध- ।

कीत् ४८, ३७.
 विद्युत्-मन्- -मन्मदिः वा ११,
 १४; श्रम २, १, ८८.
 विद्युत्-महत्- -महसः आधी २,
 १३, ७१.
 विद्युत्-लक्षण- -मन् अथ ५२,
 १, १.
 वि-द्योत- -नति अथ ७२, २, ३.
 वि-द्योतमान- -मः श्रम २, ६(५)१;
 -मन् गोष्ट ३, २, १७; -ने काष्ट
 ९, ६; माष्ट १, ४, ६; वाष्ट ८, ६;
 आपथ १, ९, २२; १२, ३१;
 हिम १, २, २३; ४, ३१.

विद्योत्^१ आधी १२, ४, १११०.
 विद्युत्, धा^२ - -वस्य कीत् २६, ३३;
 अथ ३२, १, ७; २४, अमदि, १२७;
 -ये वृदे ४, १४४^३; वार ४८,
 ११५; मिय ४, १; वा ४, १५१.
 वि^४हु, विद्रवते अथ ७०^५, ११, १;
 मित्रवन्ति गु ४, ३; अथ ५५, ३,
 २; ६६, १, ४; आज्यो ११,
 ३; वि(भवति) वा ९, १९१.
 वि-द्रव- -वः अथ ६३, ३, ९; -वम्
 अथ ५०, ७, ४; ८, १.
 वि-द्रवण- -नो आपथी १३, २०, १;
 वीष्ट ३, ५, १८.

विद्युत्- > -मन्-वेज्ज- -जसः अथ
 ५२, ३, २.
 विद्रव, ला^६ - -ला आपथ १, १६, १;
 -लाः अथा २, ४, १.
 विद्रव- ✓ विद्र (राने) द.
 वि^७द्विप्, वि^८द्विपाते आपथी १६,
 १५, ६; वि^९द्विपाते) भावि
 ३०; ७१; ८५; वि^{१०}द्विपाते

पाथ २, १०, २२; जेष्ट १, १४;
 ३; विद्विपद शंघ ७७, विद्विपे-
 महि भागिष्ठ १, ५, ५; १३१;
 व्यदेव्यन् निम् ५, १०; ७०.
 वि-द्विपाण- -मयोः शोभी १३, ५,
 १; काशी २५, ८, १५; शोभी
 १३, ९; ५४४; वैशी; -मस्य
 शंघ २३०.
 वि-द्वेप- -वम् अथ २६, ५, २; ६४;
 ४, ९; विध २९, ७; -ये काशी
 २५, १४, २६; अथ २१, ३, २;
 २५, १, ११; २६, ४, २.
 विद्वेप-याविन्- -यिति अथ ६९,
 ९, २.
 वि-द्वेपण- > -मन्-संगमन(न-अ)
 मिषार-दिपद्व्युदि-युक्त-
 -कानि शोभ ११, १९.

वि^{११} (व्या.) पाथा. तुदा. पर.
 विधान, अविपत्^१ शोभी १८, ८,
 १४; विधेः^२ आधी ८, १३, १०;
 शोभी १०, १८, ६; विधेः^३ आधी
 १, १०, ८; २, १०, १८; ८, १३,
 १०; शोभी; अथ ४८, १०; निप
 ३, ५; वा ३, २१; १०, २३१;
 ११, ३३.

वि^{१२}व्यधु^४ पाथा. दिवा. पर. ताजने,
 विप्यवि शोभी १७, १५, ४;
 आपथी १०, २६, १४; शोभी ६,
 १५; १३४४; माशी; विप्यवि
 आधी १३, ३, १६; आपथी २१,
 १९, १९१; काशी ३, २, ५, ४६;
 विप्यवि शोभी १८, ३६; ७१;
 विप्यत् वा ५, ४१; विप्य वा
 ६, १२१; विप्यत् > ला श्रा

७, ३३; अविप्यत् वाधुशी ४,
 ८८; १; अविप्यत् वाधुशी ४,
 ५९^५; ३; विप्येः शोभी १०,
 २, १३; लाशी ३, १०, १२.
 विद- -वः अथ ६८, १, ५१; विप
 २०, ४४; वा ६, १९; -वम् वार
 ३, १०, १६; -वयोः वा ४, १५;
 -वै अथ २६, ११.
 विद्या काशी १३, ३, १८; आपथी.
 वेध- > -व-शाला- -ह्या शंघ ५२.
 व्यध- पा ३, ३, ६१; पाग ६, १,
 १५६.
 व्यधन- > -व(न-अ)थे- -वम्
 आशी २१, १८, ५; हिशी १६,
 ६, ३४.
 व्यध- पा ३, १, १४१; -घः कीत्
 ७१, ६१.
 व्यध-क- -कर्य कीत् १०२,
 ३१.
 व्यध-ला- -ला विध १६, ९.
 वि-वद्यत्- वि^{१३}/रह द.
 विधत्वायति सामिष्ट २, ४, ५; १५१.
 वि^{१४}धम्, विवतामि आपथी ४, ६,
 ५; माशी ४, ९, ३; हिशी ६, २,
 १६; वि^{१५}धमत् शोभी १८,
 १; १५
 वि-धमन- > -मन्-शोळ- -लम् वा
 १४, १८.
 विधमा^{१६} - -मन्-माथी ४, ६, ३; ३.
 वि-धर(व) > शी^{१७}, -वधे- वि^{१८}प
 द.
 वि^{१९}धिर्धर्म^{१८} - -मैः आपथी ६, १९, १;
 हिशी ६, ६, १७.
 रवि-धर्म^{१९} - पाग ५, १, १२४.

a) वध. 1 b) वेप १ द. 1 c) पाथे. वेप १, १५६ c 1 द. 1 d) = मन्-विप्य- 1 e) व्यध-
 विप्यत् इति मुने. 1 f) धा. परिवर्तये वृत्तिः 1 वा १०, २३ पराश्रयः द. 1 g) शोळ ३, ३, ४, ६८ वा ६, १, १६
 पराश्रयः द. 1 h) वृ २१२६ j द. 1 i) = आशुदि-मन्- 1 j) अथा. मै ४, ९, १० शिधे इति पाथे. 1
 k) = विद्र-धर्म- 1 श्रा. 1 l) हु. पागम. 1

वैधर्म्य- पा ५, १, १२४.
 विर्षामिन्- निर्षयाः अय ७०^२, १५,
 ५.
 वि-धर्मन्- पाठना ४, १६४; -र्मि
 वाश्री ३, २, २ १५^१; निम् ८,
 १३: २७^०; -र्मिणः आपश्री ६,
 १९, १; द्विशी ६, ६, १७^१;
 -र्मिणि वा १४, २१^१; -र्मिणे
 वाश्री ३, २, १, ३०; -र्मिन् निम्
 ३, १०: २०; वा १४, १६;
 -र्मिर्मा आपश्री २१, ९, १५;
 द्विशी १६, ४, १३.
 वि-धवा- पाण ४, १, १२३; -वा
 वैष्ट ५ ९: २; वीषि ३, ५, २;
 या ३, १५^१; -वाम् वैष्ट ७,
 २: ७.
 वैधवेय- पा ४, १, १२३.
 वि✓धा, विदधाति आपश्री ८, १५,
 १२; २१, १२, ५; वीश्री; विद-
 धामि माष्ट २, ६: ४^१; ऋविद-
 धातु वाश्री ४, ११, ६; या ६,
 १४; ऋविदधात् कौष्ट १, १२, ६;
 सांष्ट १, १९, ६; विदध्यात्
 वाश्री ९२^१; द्वाश्री ५, २, १;
 लाश्री २, ६, ४××; निम्; विद-
 धाताम् मीष्ट २, १, २२;
 विदधुः कौष्ट ३, १०, १५; सांष्ट
 २, १६, २; गोष्ट ३, ५, ३८.
 वि *दधे वीश्री २, २: २^१;
 वि *दधुः ऋषा ८, २२^१; विधा-
 स्वामः माश्री १, ६, ४, ६; वि *
 धाः ऋषा ८, १^१.
 विधीयते आपश्री ९, १, १; २४,

१, ३; भाश्री ९, १, १; वैश्री;
 विधीयन्ते निम् ९, ८: ४; वैध
 १, १, ३; चव्यू ३: १३; या १,
 १५; १६; मीष्ट १, ४, २२^०××;
 विधीयते द्वाश्री १२, १, ३४;
 मीष्ट २, १, २८××; विधीयेत्
 निम् १, ११: २८; २९; मीष्ट
 १, ४, ९.
 ऋविदधत्- -धत् आपश्री १६,
 २९, २; द्विशी ११, ८, ४; निम्;
 वृष्टे २, ४१^१.
 विदधान- नम् विध १, ३६.
 वि-धा^१- -धा वाश्री १४, ४१, १;
 ४२, १; -र्धाभिः वीश्री १०,
 ३८: ८; वैश्री १२, २: ४; ऋष्ट २,
 २, ४^१; कौष्ट ७४, १५^१; -धाम्
 ऋवीश्री २, १६: ६; वीश्री ५: ५;
 ७; -धायाम् वीश्री ११, २:
 २४; १२, ७: १३; १५, १: १०;
 -धायाम्-धायाम् बौश्री ५: ७.
 विधा(पा-अ)घात- -सः बौश्री
 ५: २; -सम् आशिष्ट ३, ८, १:
 ३९^१; वीषि १, १५: १०; -स
 आपश्री ९, १०; द्विष्ट ३, २९.
 विधा(पा-अ)धे- -धे पा ५, ३,
 ४२.
 विधा-सप्तम-अश्री- -मीष्ट
 आपश्री २, १०; द्विष्ट ३, २९.
 वि-धातु^१- ००तः या ११, १२^१;
 -ता आश्री ३, ८, १^१; अय
 ४८, १३^१; वृष्टे १, १२६; ५,
 १४७; ८, ७; १२६; ऋनिष्ट ३,
 १५^१; ५, ५; या १०, २६^१;

११, १०; ११; -ताम् पाष्ट ३,
 ४, ८^१; आशिष्ट २, ५, ६: ३^१;
 ४^१; सांष्ट ११६: ५२^१; -त्रे कौष्ट
 ३, १०, ९^१; सांष्ट २, १४, ९^१;
 पाष्ट २, ९, ४; आशिष्ट.
 वि-धान- पाण ४, २, ७५^१; -नम्
 आश्री ७, ३, १५; वाश्री २५:
 ३; माश्री; -नस्य मीष्ट १, ३,
 १६; -नात् पावा १, ३, ५८;
 २, २, २५; २७; २८; ३, १६××;
 मीष्ट; -ने निम् १, ११: ३१।
 पावा १, १, ३; २, २८; ३, १;
 १३××; -नेत् वैश्री २१, ७:
 ६; आशिष्ट ३, १०, ४: २५;
 काष्ट ४५: १९; वैष्ट.
 वैधान- पाण ४, २, ७५.
 विधान- नम् पावा ३, १, १२;
 २२; ४५××; -नस्य पावा ८,
 २, २३; -नात् पावा १, ३,
 १२××; -ने पावा ३, १, १६××.
 विधाना(न-आ)नर्षय-
 -क्यम् पावा ३, १४२.
 विधाना(न-अ)धे- -धे
 पावा ४, २, १३३; -धेम् पावा
 ५, ३, ८३; ७, १, १.
 विधान-तय (:) मय ३६, ३६,
 ३; ४६, ७, १××.
 विधान-त्व- -त्वात् मीष्ट ६, १,
 २३; ११, २, ७.
 विधान-विदु- -विष्ट आ ११^१;
 २, २; ६२, ४, ७; ६८, १, ५××.
 विधान-सप्तम- -ध्यात् पावा
 ३, १, २.

a) वैष १ द.। b) सपा. विधर्म (कौ १, ४५८ जे १, ४८, २ च) <> विधर्म <> शौ ७, २३, १ वै २०
 ४, १० विधर्मि इति पाठे। c) = सप्तम-विशेष-। d) निर्मगः इति पाठः इति. शोचते (द्र. मे १, ५, ४; आपश्री.)।
 e) *वधे इति शोचते. प्रष्ट.। f) = प्रकारः, आश्रित- प्रष्ट.। g) १ २१२१ ८ द.। h) पाठे. वैष इ विधाता ऋ
 १०, ८२, ३ टि. द.। i) = गेषाविन्-। j) पाठे. वैष इ विधाता ऋ १०, ८२, २ टि. द.। k) = देवता-विशेष-।
 l) = मरुत्-विशेष-। सपा. ऋ २१९, ३१ विधाता इति। m) १ १०५ f द.। n) लप. <✓विदु (इति)।

विधाना(न अ)र्थ- -धे मीस् १,
४, ९, १८, २०.
पुंरनि पान-> ०नी- -न्याम्
आपथी १३, २४, १८, बौधौ
१४, १३, २२, २४, वैधौ
वि धाय आथी १०, ६, ७, काथी
वि धावन्-> ०क-रव- -न्यात् मीस्
१०, ३, १८
३वि वि(वप्र)०- -धय आपथी
२४, २, २७, आप्रिष्ट, -धि
आपथी १९, १६, २५, बौधौ
२३ ९ २६, माथी ५, २, १०,
१, हिथी, पाथ २, ६, ५०, मीस्
५ १, २००, ११, १, ६९०,
-धिना वैधौ १, ४ २, कैथीका
१७३, आप्रिष्ट, यासि २, ११६०,
-धियु बौधौ २७, ११ १०,
वप्र १, १, १, २, १, १, कौस,
-धियु मीस् ११, १, २४,
-धीनाम् मीस् १, २, ७, ३०,
२, ४, २५, ३२, १०, ८, ४,
-पुं०धेआथी ८, १३, १०, शौथी
१०, १८, ६, बौधौ १९ ७ ५१,
२९, ४ ४, माथी, -धे हिथी
३, ८, ३६, द्राथी १२, ३, १६,
१८, लाथी ४, १०, १६, १०, ३,
१ वृदे, मीस् १०, ८, ३५, -धौ
बौधौ २७, ४ २८, आ २३,
५, ३, २४ १, ३, पत्ता १, २,
४३, मीस् १, २, २५, ६ ७, ७९
०विधि- -धय पावा १, १, ५
६२३, पावका ५ ३, -धि पावा
१, १, ३९, २, ४, ५४४, ४, ४,
-धिम्य पावा १, ४, २, -धियु
पा १, १, ७, ५८, ६ १, ८४४, ४,

-धे पावा १, १, ७, ३९४, ४, ४,
-धौ पावा १, २, २२, ५६,
७, २४, ४, ४
०विधि-रव- -न्यात् पावा
१, १, ५६
०विधि प्रतिपेय- घ पावा
१, १, ६२, २, ६४४, ४, -धे पावा
१, १, ५६
०विधि प्रसङ्ग- ह पावा १,
२, १, ३, ७, ४, ४, ४,
०विधि समाप्त पाव- -लेपु
पावा ४, १, ६५
०विध्य (धि अ) र्थ- -धेम्
पावा १, १, २३, ५, ३, ७, २
०विधि पावा १, ४, ६०
विधि-कोप- -व मीस् ३ २ ९
विधि व्रम-तादर्थ्य- -ध्यात्
मीस् १२, १, १६
विधि गामि-त्व- -न्यात् मीस्
१० ३, ६
विधि चोदित- -वम् शथ १००
विधि-ज्ञ- -ज्ञ आथी ८, ३,
-न्यात् शथ ७०, १ ४
विधि-तस् () मीस् ११ १, ३४
विधि ल्य- -त्वम् मीस् १०, ३,
११, -न्यात् मीस् ३, ५ ३१,
१०, ६ १९, ११, ३ २
विधि रट- -एत वृदे ४, ७७ ५
२४
विधि द्वेष- -घात् लाथी ४ १०,
१९
विधि निगम-भेद- -न्यात् मीस्
१० ४, ३०
विधि निम व्रणा(ण आ)मन्त्रणा
(न-अ)घोष्ट समहन प्रार्थन- -नेपु

पा ३, ३, १६१
विधि-निष्पाद्य- -वम् शथ ९८
विधि पूर्व- -वम् शथ ९, १,
-वम् शथ मीस् १०, ७, ३७
विधिपूर्व- -कम् शथ ३०,
२, २, शथ १०३, विध १७, ४५
विधिपूर्वक-त्व- -न्यात्
पावा १ १, ४४
विधि पृथक्त्व- -त्वम् मीस्
२, ४, ३१
विधि प्रतिपेय- -धयो पावा १,
१, ४४, -धौ लाथी १०, ३ ११,
पावा १, १, ६३
विधिप्रतिपेया(ध अ)र्थ-
-धम् पावा ४, १, १
विधि-प्रत्यय- -न्यात् मीस् ५ ३,
४२
विधि प्रदेव- -स मीस् ४ २,
३०, ७ ३ १
विधि प्रमाण- -न्यात् निम् ३,
१० ० १५
विधि बोधित- -ते विध ६४,
४०
विधि-मन्त्र- -न्त्रयो मीस् २,
१, २८
विधि यज्ञ- -ज्ञात् विध ५५,
१९
विधियज्ञ समन्वित- -ता
वाथ ७६, १०, विध ५५ २०
विधि लक्षण- -न्यात् मीस् ९, २,
३, -न्यानि हिथी १ १, ६
विधि लिङ्ग- -द्राणि मीस् १०,
८, ६०
विधि-रव- -कैथीका ४१, वैताथी
१, १, आप्रिष्ट २, ७, १ १५, वाथ

a) वैप १६ । b) = ब्राह्मण प्रथ । करणे प्र (तु भाग्यकारा) । c) विधे इति जीस प्रम् ।
d) विधित इति जीस प्रम् । e) = व्रमन्- । f) विधौ इति जीस प्रयास । g) विधिप्रक इति जीस
प्रम् । h) वप < √धा । i) इत् > वत् । j) विधिनोदिते इति जीस । k) वस । l) तु जीस प्रम् ।

विधि-वर्जम् वैध ३, ११, ९
 विधि-विशेष- -य काश्री ४, ३,
 ८, वाण ४, २.
 विधि-शब्द- -वृत्त्य मीम् १०,
 ४, २१; -व्या मीम् १, २, ५३.
 विधि-शेष- -पान् निम् १, ११
 १.
 विधिशेष- -व्या मीम्
 १, २, २९, ६, ७, ३०.
 विधि श्रुति- -ति: मीम् ६, २,
 ७, -ती मीम् १०, ३, ४३, ५५
 विधि श्लेष- -न्व. मीम् ११,
 २, ४
 विधि हीन- -नम् वैध ३, ११,
 ४
 विध्य(धि-अ)तिक्रम- -म: मीम्
 ६, २, २२
 विध्य(धि-अ)सिद्धि- -यात्
 मीम् १०, ३, १६.
 विध्य(धि अ)नियन्त्र- -न्वम्
 पावा १, १, ४४
 विध्य(धि-अ)न्त- -न्त मीम् ७,
 ४, १०
 विध्य(धि अ)पराध- -धे आश्री
 ३, १०, १, आश्री ३ १९, ९,
 आश्री २, १, १, वीश्री २२, ८
 १७, भाश्री
 विध्य(धि व)भाव- -वात् मीम्
 ७, १, ७
 विध्य(धि अ)ध- -धं काश्री १,
 ५, १७, -धम् पावा ३, १, १६३
 विध्यधैसमाप्त- -हे अप्राय ५,
 ३
 विध्य(धि अ)पदेश- -न्ते
 आश्री १, १, १, लाश्री १, १, १

विप्या(धि-आ)नवैक्य- -व्यम्
 मीम् १, २, २४.
 विप्यु(धि-उ)वृत्ति-व्यवस्थान-
 -वात् मीम् ८, ४, २८.
 विप्यु(धि-उ)पलक्षण- -गात्
 मीम् १०, ३, ४
 विप्युपसर्ग- -नीस्य अश्री १,
 ३, ६.
 विप्यु(धि-उ)पार्जितो(त-उ)
 पवरण- -ग: वैश्री १२, १: २.
 वि-वे(धि-ए)क्त्व- -व्यात् मीम्
 ११, ३, ३०
 वि धीयमान- -नम् शाश्री १, १, ४.
 वि धेय- -पाग ५, ४, ३८^b, -य पाण
 २, ६, ५९.
 १ वैधेय- -पा ५, ४, ३८.
 विधेय-भाव- -वात् पावा ३,
 १, ४६, ८, ४, ३२
 विधेय-सामानाधिकरण्य-
 -ग्यात् पावा २, १, १
 वि-हित,ता- -त: आपश्री १२, १०,
 ८, १२, ९, १४, ३, १६, १०, १०,
 वीश्री, -तम् आपश्री ३, २०,
 ११, १४, १०, १३, वीश्री २,
 १२ ९^c, १४-११^d, भाश्री,
 -तस्य भाश्री ६, १, ५, ३३, ३४,
 वाश्री २, १, ४, ३७, पावा २, ३,
 १, ३, २, १०७, -ता आपश्री
 १७, २५, ४, ७, वीश्री २४, ३८.
 ९, द्विश्री ११, १, ३, ४, अश्री
 ९, २५, शश्री ५, ३७८, वृदे ८,
 १३५, नाशि २, ६, ७,
 -ता. द्विश्री १६, ५, २०,
 निम् ६, ६ ३, आमिण्ड २, ३,
 ४-२, अप्राय ३, ५, ८, अप,

-तान् द्विश्री ३, २२, -तानि वीश्री
 २५, १४-३, १५: १, निम् २,
 ११ ३३, वाण १३, १, वा १४,
 १९^f, -ताभि: आपण्ड १२, ६,
 -ताभ्याम् भाश्री ३, १३, १२,
 -ते भाश्री १, १०, १२, -ती
 आपश्री १२, २९, २, २१, १३,
 १७, वैश्री १५, ३७: १७, लाश्री
 ६, ८, ५
 विहित-त्व- -व्यात् पावा ३, १,
 ११२, ४, ४, ७६×४, मीम् ३७,
 ८, ४२.
 विहित द्रव्या(व्य-अ)हान- -मे
 वैश्री ११, ११: १
 विहित-प्रविषेध- -ध मीम् ९,
 ४, ३५, १२, २, ६; -धात् मीम्
 २, ४, २६.
 विहित विशेषण- -नम् पावा
 ६, १, १३.
 विहिता(त-आ)ज्ज्ञान- -वात्
 मीम् ७, १, २०
 वि हितवत्- -व-ती निम् ७, १२,
 १३.
 वि धात्(क>)का'- -का वा ३, १५
 १-२ विधान- -प्रष्ट वि/घा ह
 वि धारणी- -वि/घ ह.
 विधारय^{१०}- -पावाग ४, १, १७३
 वि धारयत्- -वि/घ ह
 विधारया ना वृहस्पदेवम्यसि^{११}
 वीश्री १८, ४७ १८
 वि धारयित्, -धारिणी-, -धायं
 माण- -वि/घ ह
 वि/घाव् (गती), विधावति वीध ३,
 १, २८^f, विधावन्ति आपश्री
 २२ २, १८, द्विश्री १७ १, ३४,

a) तुष > वस । b) तु पागम । c) = नन्द- । d) पागे कैप १ विहितानि ऋ १, १६४, १५
 दि ह । e) तु पासि । f) = विषवा- । वस । g) व्यन । h) (इन्द्रो विष्णुमाह) विधारयान्,
 नौ मह, मस्या [फामदुपाया], इदम् (अधुना), अक्षरता दति शोध (तु मूरो) ।

विधावत् काशी २५, १२, १८१.
 विधावत्-वत् या ५, ४१.
 विधावन-नास् या ३, १५
 विधाव् (शुद्धी), विधावयते वीभी
 १७, ४० : २१.
 विधि- विधा द.
 रविधि^० > रविधेय^०-या चम्बु
 २ : ३७.
 विधीयमान- विधा द.
 विधु, विधुते आपथी २४,
 १२, ११, वीभी १३, ३८ ५, ३५,
 १७, वीधु १०२, २, विधुनोति^०
 आपथी ३, ६, ८, विधुनोति^०
 हिरी १, ७, ६४; विधुनुवाय
 आपथी १९, २५, २२, माथी १,
 २, ६, ५, हिरी २२, ६, ४.
 विधवन^०-अस् वीभी १५, १५ :
 १५. -नास् या ३, १५, -नास्
 वाथी ३, ७६ : २२. -नेन
 वीभी १५, २९ : २२.
 विधु^०-धुम् वाथी ३, २, १, ४७.
 विधुवा(न)ना-ना वीभी १५,
 २९ : २४
 विधु->वत् पाव^०-या. आसिग्
 ३, ४, ४. ११, वीधि ३, ४, १४,
 १५
 विधुत्-पावम्^०-स्मा शुभ ४,
 १५९, चम्बु ४ : ३४
 विधुन-ने वा ७, ३, ३८.

विधुवत्-वन् हिरी ८, ४, ४६.
 विधुवत् आपथ १, २२, ५, हिग्.
 रविधु^०-वाठ १, २२, -धु^० वीभी
 ९, ४ : २१, १७ : ९, १०, ८ :
 ५, वीभी १३, ६ : ७, -धुम्
 वीभी १३, १२, १, १४, १२, ४,
 आपथी, या १४, १८०.
 विधुं तुद-पा ३, २, ३५
 रविधु^०, विधुप्रति हिरी ३, ७,
 ९५
 विधु^०-वाठ १, २९; -रा वीधु ५,
 १ : १, वीधु २, १०, ४, वीधु २, ६,
 १, -धुम् माथन २, १४, १००,
 माथ १, २३ : १६, -नागास्
 वीधि १, १, २३.
 विधुत् वा-नाम् आपथी ५, २६,
 ३, माथी ५, १७, ५
 विधुत्-व-वम् वाथी १, ५, १, १.
 विधुत्(र-म)ति^०-सि वीधि २,
 ५, १, हिग् २१ : ११, वीधि
 १, १, २४.
 विधुम्^०-म अप २४, ४, ४, -मे
 वाप १०, ८.
 विधुमसंभ्र(म)मा-मा अप
 ७०^०, ११, १७.
 विधु, विधायते आसि ८ १
 विधायति निद् १०, २०४,
 वीधाय आसिग् ३, ८, ३ :
 ३१, वीधि १, १६ १८

विधावत् श्या १, १०३१
 विधु(व)ली^०-नी आथी
 ८, १४, ४, वीभी ४, १८, १;
 आपथ २, ८, ५, आसिग्
 विधुं-धुं^० आपथी १०, ३, २,
 माथी १०, १३ ३, -धुं^० आपथ
 १, १४, २, वाप ५, १५, या १२,
 १४०, श्या २, ६४, -नास्
 वीधु ११६ : ५२.
 विधाव(व)ली^०-नी वाप १,
 १५६.
 विधावत्-वन् वीधु ७१, ११.
 विधावित्-ना या १२, १४
 विधावित्(व)ली^०-व निद्
 १०, २ १.
 विधावमाण-व. आसि ८, १
 विधुत्-वम् निद् १०, २ : ५,
 -वा हिरी ७, ६, १, -ने तेवा
 ४, १११
 विधुति, वी^०-व आपथी ११,
 ५, ३, आपथी २३, ७, १, निद्
 १०, २ १; -धुं^० वीभी ८,
 २४, ३, वीभी, वीभी १५, ७
 ४^०, १६, ८ १२^०, १७, ४२ :
 ५^०, हिरी १६, ५, ३^०, १८, ३,
 १९, निद् १, ५ ५९, वीधु ४,
 ४, ३^०, -निद् वीभी १०, १३-
 २१, आसिग् १, ४, १-१९, ३,
 ८, १ : ११, -तिग्मः निद् १०,

a) वामे वृ १७११ ० द । b) व्यप । c) <विधा इति I व प्रत्य । d) = वाचतनेवि-
 काणा-वा लक्षणेव- वा । e) परस्पर वामे । f) = व्यजन- । उप. भावे वरणे वा इत् । g) = व्यजन- ।
 परणे वृ प्र. (वाठ १, १३) । h) वत् । i) = वीधु- (वृ वेप १) । j) = छिद- ।
 k) उपस्यस्य भा लक्षणे वृत्ति (वृ आपथी ६, १२, ४) । l) विप, नाप (सुतवार-) । म्यु १ वत् इति क्वा ।
 शक । m) वामे वृ ११५९ ० द । n) विधुत् इति मूले । o) वेप २, २४ द । p) = मधु-
 विधेय- । सवा अपु २१९, ३१ विधावण इति । q) = वीधुत्- । उप. वरीरे वृत् । r) सप वीधि १, १, २८
 विधुत्-वो (वेदु. ३०३ विधुत्-वो) इति वामे । s) भाप, नाप (उत्तर- [निद् १, ५ ५], सन [आथी प्रत्य.],
 तृण-व्य- [आथी ३, ६, ५ प्रत्य.], व्यप [शुभ २, १०३] । वेप १ द. । t) वामे वेप १ विधुत्-वे ७, १,
 १२, १ टि. द ।

१ इ०^३, -तिपु निम् १०, ४
 १, -वी कश्री ३, ६, ५, ८
 १, १०, आपथी, -ती: वीथी
 ५, ६ ६, -तीभ्याम् आपथी
 ३, ५, ९, ४, ६, ५, १, वीथी
 ६, १०: ३, १९: १५×५,
 भाथी, -वीपु वीथी ५, ६ ६,
 -थ्यै जैथी ५: १०, दाथी १०,
 २, १०, लाथी ३, १०, ९, १,
 निम् ८, १०×४६, -थ्यो आपथी
 २, १०, २, वीथी १ १३ २९, १,
 ४, ४ ५, ५, २ १४×४,
 माथी
 विरहित-लोट-एम् क्षिपि १६,
 १२^०, -एम् द्विपि १५ १४^०
 वि√भृत्>वि पठि- द्वि कश्री ८,
 २४, ३, १
 विविधे^० शीथी १०, १०, ६
 विविधेनाम्^० शीथी १० १०, ६
 विविधेम्^० शीथी १०, १०, ६
 वि-धेय- वि√धा द
 वि√धेय्, रिष्वस्यसविष्वस्य अप
 ३६ ९, ३, १
 वि ध्वस्त- स्तम् अप ७०^०, १०, ५
 रिष्वस्त-कलुपय(प-व)अक^०-
 -के अप ६३, २, २
 रिष्वस्ता(त-अ)निम्-अभृत्-
 -एम् अप ६८, १, ४५
 विधिनदृष्ट^०- सी अप ४८, ८, १,
 निप २, ४
 विनित्त, ता(पादा)- पाप ४, २, ८०,^१
 -ताप वीप ११६, २^०
 वैनतीय- पा ४, २, ८०

रविन्(त>)तर^०- ना सु १, ४,
 २, १, २०-२१, ४×४, वृद्ध ५,
 १४४, -तापाम् सु २, ६, -०ते
 सु ५, ५, ६, ३; ७, २, ४×४,
 वैनतेय^०- ००य सु ३०, ४, -य:
 सु २०, २, ४, २३, १×४, माथि
 १६, ८, माथि २, ८, १६, -यम्
 सु १, २, ५, १, ३१, १, -यस्य
 सु ५, २, -याव वेष्ट २, १२,
 १४,
 विनवा कद्रु-सपे- ना सु १, ५
 वि√नद्, विनदन्ति अप ७१, १०,
 १,
 विना मो'द्-(> वैना, नो'द्- पा)
 प ग ४, १, ८६,
 वि√नम्, विनमन्ति अप ७०^०, २१,
 २, ५
 इति तत्, ता'- -ताम् वा-ए ३,
 १२, -ते अया ३, ४, २^०,
 वि नाम^०- अे शुभ्रा ४, १९३, शीव
 ४, २४,
 विनाम्^० पादा ८, २, १६
 विनाम- अेषु पापवा ४, ११
 विनय- वि√नी द
 वि√नञ् (अर्क्षणे), विनयते अप
 ७०^०, २३, ५, विनयति वीथी
 २७ ८ १, माथी, विनयन्ते
 अप ७०, ५, ४, विनयति अप
 ५७, २ ५, ४×४, विष २०,
 २४, या ५, ११, वि (मन्त्रत्)^०
 माथी ४, ४, १९, विनयन्तु
 कौय १००, १, विनयते अप
 ६४, ४, ८, ६७, १, १×४,

विनयते अप ३, २, ५, ७२, ६,
 २, वाप ६, ३१, विप ५, १५५
 विनयति अप ७०^०, ७, १,
 विनयिष्यति सु १४, ५,
 वृष्यन्तम् कौय ५६, ६, ७
 विनाशयति या ५, १६, विनाश-
 यन्ति अप ६८, २, ६०, ६१,
 विनाशयेत् अप २२, ३, ३,
 २४, १, ८^०×४, वाप २, ४९,
 विनाशयेयम् आपथी १९,
 २१, २०, द्विथी २२, ४, ११
 विनशते- अस्य लाथी १०, १५,
 १, -ने शीथी १३, २१, १
 विनष्ट- ए वप ३, ९, ११, -एम्
 वप ३, १, १९, विष ६, ६,
 -एति विप २०, २५, २७, २९
 विनष्ट-रह्य-मूल्य- अयम् विष
 ५, १३८
 विनष्ट सस्य-मूल्य- अयम् विष
 ५, १४६
 वि नष्टि^०- एय वामूनी ३, ४४
 २, ७, ४५ २, ११, -धी
 वापथी ३, ४४ - २, ६, ८, ४५
 १, १०, ४६ १३, १०
 विनाश- अ वीथी २७, ८ ३,
 अप ६८, २ ३९, ७०^०, १०, ४,
 तैमा १, ५०, -अम् अप ७१,
 १३, ३, ७२, ४, ५, -आप अप
 ५४, ३, ३, ७०^०, ६, ५, ४५
 २४३, -ते वीथी २७, १ २३,
 वीथ २, १, ५, द्विप, पाप
 १, २, ६४, ८, ३, ४४, -थेष्ट
 वीथी २१, १२ ४

a) सप्त आग्रिष्ट ३, ८, ३ ३१ वीप २, २०, १४ क्षेत्रविष्णो इति पाठे । b) सप्त आग्रिष्ट ३, ८, ३
 १० वीप २, १९, ४ विषे । c) सोम वैप १ द्विन्विधेनाम् इति द । d) क्त > वप । e) वैप १ द ।
 f) अर्थ १ । वनित- इति [१३] पादा । g) = देवता विशेष- । h) = मन्त्र मातृ- । i) पादा पाठ ।
 j) = [१३] कन्या- । k) = मूर्धन्य-नाम- । l) = [मन्त्र] १ प्रथम-स्थान- । अप आग्रिष्ट १३ ।
 m) = आहुति विशेष ।

विनाश-कृत् - कृत् अप ५४, ३, २.
 विनाशक - पा ३, २, १४६.
 विनाशन, ना^१ - ना: अप ७०^१, १८, ४; -नम् अप ३७, १, १; ७०, १०, ३; वृदे २, १२१; ८, ५०; -ना: अप ७०^१, १९, १६; -ने आ ३६, ३, ५
 विनाशनी - नीम् अप ६५, ३, ६.
 विनाशित - नम् सु २, ३.
 विनाशित् - न्ति विष २६, ४९.
 वि/नह्, विनहति द्विथी १४, ३, २१.
 विना^१ वीथी २०, २४ : १०; वीथीका २०७; वैथ, पा ५, ३, २७; पाव १, १, ३७.
 विना-वृ(त>)वा - वा निष २९, २३.
 विनाट^१ - टात् काथी १५, ३, २८.
 विनाट^१ - नम् वीथी २२, १७ : १८; -थे वीथी २२, १७ : १३.
 विनाट^१ (> वैनाटक - पा.) पाप ४, २, ११७.
 विनाम - वि/नम् द.
 विनायक, विनायन् - वि/नी द.
 विनाट^१ - लेपु वीथी १८, ३० : २२.
 विनाश - वि/नरु द.
 वि/निह् > वि-निहण - ण्यव वा ४, १८^१.
 वि-निह्ने^१ वा ४, १८^१ कृ.
 वि-नि/सिप् > विनि-सिप् षाट ४, ३, २५; शंष १५९ : ३; वृदे ५, ८४.
 वि-नि/गृह्, ग्रह्, विनिगृह्णाति द्विथी

२१, ३, ५२.
 विनि-मह - > ष्टा(ह-अ)भं - > थोव - नम् वा १, ७; -वी वा १, ३; ५.
 विनि-भनत् - विनि/ह्व द.
 वि/निह्, विनिहण्यत् वाधूथी ४, २४ : ४.
 वि-नि(दा>)इ^१ - न्द्रा वैथी १, ६; १७.
 वि-नि/धा, विनपदधात् वाधूथी ४, २९ : २१.
 विनिदधुः वाधूथी ४, ११ : १३.
 विनि-धान - नम् द्विथी १, १, १९.
 विनि-घाय आपथी २२, ३, १८; वाधूथी ४, ११ : ६; ८; १०.
 विनि-धि^१ - धीन् वीथी २, ८ : १४.
 विनि-हित - ष्वा(त-आ)हम् - न्मा आपथ १, ८, २६; द्विष १, २, ११४.
 वि-नि/पत्(पती) > विनि-पतित - न्त्वा: अप ५१, ३, १.
 विनि-यात् - न्त्वा: याथ २, ६, १४.
 वि नि/चम्, विनिचान्ति वीथी १०, १० : ७.
 वि-नि/मे(शंखदाते) > विनि-मप^१ - न्त्वा: आपथ १, १०, १४; द्विष १, ६, ३८
 वि-नि/यच्छ्, यम्, विनिदध्योत् वाथी १, १, १, ७०.
 विनिपमेत मीत् ८, १, २८.
 वि-नि/युञ्ज्, विनिरोज^१ अप १, ३७, २^१; असां ७, २^१.
 विनिगुञ्जते वप्र १, ८, १५.

विनिरोजोत् वप्र २, १०, ४.
 विनि-युक्त - न्त्वा: शुभ ३, १४२; ४, ११७; -नत्वा: ऋष ८, १.
 विनि-योग - न्मा: सु १, ५; शंष २५३; वृदे ८, १०; शुभ; -गम् वृदे ७, ११३; वा १, ८; -ने वापथ १, १३, १५; द्विष ४, ४, ३०; शुभा ६, २१; भाव् ३, १; पा ८, १, ६१^१.
 विनियोग-वसः^(ः) शुभ ४, ११४.
 वि-नि/रुह् > विनि-रुह - न्द्रा आपथी ४, १४, ९.
 वि-निर्/वम् > विनिर्-वत् - > ष्वा-नप^१ - न्त्वा: वा ५, १६.
 वि-निर्/जि > विनिर्-जित - न्ती वृदे ५, १२५.
 वि-निर्/जी (<नी) > विनिर्-णय - न्त्वा: विष २२, ९३; -नम् विष २२, ९३.
 वि-निर्/दिश्, विनिर्दिशत् अप २, १, ३; २१, ७, ६; २५, १, ४४४; शंष.
 विनिर् दिष्ट - टश्च आमिष् २, १, ३०१; अप ३०^१, १, ७; ऋष ४, ८.
 विनिर्-देश - न्द्रात् मीत् ६, ७, १३.
 वि-निर्/युञ्ज् > विनिर्-युक्त - > ष्वा(क-अ)प्रसात्^१ - न्त्वा: मज ६.
 वि-निर्/वप् > विनिर्-वस - से आपथी ९, ४, १०; मीत् ६, ५, १८.
 वि-नि/वप्, विनिवपन्ते वाथी ३, ९, १, ८; विनिवपेरत् आपथी २१, २, १२; १३; द्विथी १६, १, २५.

a) वप, भाषादर्पणं द. b) वैप १ द. c) वैप २, ३ ख. द. 1 d) = विनाट-1 = वंशनाडी- इति सूची।
 e) वृ. पापम. f) = विनाट, विनाट-1 g) ऋष्यनाथ इति JNS. ह. h) गामे, वैप-१ विनुशे टि. द-1
 २) वष. 1 j) = मन्त्र-विशेष- [वीथी २, ५]। कर्णे ऋषिकर्षे वा प्र. इति केशवः [ह. सूची]। k) गामे कप् प्र.
 कालाभावात् उरु. (यक. पावा ३, ३, ५६; ६, १, ५१)। l) द्वितीयावशान्दत्तः (ह. एता ७, १६ विनियोज द्वि)।
 m) षोडश इति वररुद्रैः शोषः। n) विनियोज इति संशुद्धैः शोषः। o) = नानाप्रयोगन-विनियोग-।

वि-नि √विद् (ज्ञाने), विनिविदयेद्
 शंष २१९, विध ६५, १४
 वि-नि √विष् > विनि-विश्य आपथी
 २१, १०, १३१.
 वि-नि √वृत्, विनिवर्तते अण ५०, ४,
 ३, विध २२, ५, शंष ३५१.
 विनि-वर्तक- > का(क-अ)धिकार-
 का(क-अ)पधारक- -का. तैप्रा
 २२, ६.
 विनि-वृत्त- -त्ता सुध १५
 विनि वृत्ति- -त्ति पाण २, १७, ५,
 १२
 वि-नि(स् > श् √चि > विनिश्-
 चय- -य अण २४, २, ३, ६१,
 १, २४, वृदे ३, २१.
 विनिश्-चित- -शी भासि ३२.
 वि नि (ए > प् √छ, विनिष्कारयति
 कौ ७७, ७
 वि नि √सृप्, विनिसंपन्ति आमिष्ट
 ३, ६, १ २६, ३ : ३३, ८, ३ :
 ३१
 विनि सृष्ट- > शा(स आ) कृति-
 नी आथी ६, १२, २.
 विनि सृष्य आथी ६, १२, २.
 वि नि(स् >) √सृप्, विनि संपन्ति
 वीथी ७, ११ २४, वीथि १,
 १ : ३, १२ ८, १६ २४१.
 विनि सृष्य वीथी १७, ५ १०, १
 १९
 वि नि √हन् > विनि-प्रद- -प्रन्त
 अण ६१, १, १०.
 विनि हन्- > ष-सुरग द्विप-
 -य. अण १८, ४, ३
 वि √नी, विनयते शैशि १६७,

विनयति पाण १, १५, ४,
 विनयन्ति वीथी ८, १ : १३,
 अण १४, २, वि...नयन्ति
 वाधुथी ३, २५ : ४, वि नया
 मसि आपमं २ २२, २१^०,
 ष्विनयन्तु आपम २, २२, १,
 पाण ३, १३, ५, हिण १, १५,
 ३, ष्विनय वीथी १०, ३,
 १२, वीथी ८, ८-९; ११, ८-
 ९, १२, १३-१०, १६, २१ :
 ११; माथी २, ५, १, ११, विनयेत्
 तु २, ५.
 विनिनाय वीथी १८, ४५ : ३६,
 ष्विनैत् आपथी २, ६, ५^०, वीथी
 १, १२; ४०^०, २०, १०. २५, २५,
 ११ १४, २६, १४ : १८, १५ :
 १६, माथी २, ६, १^०, माथी
 १, २, ३, २८, ५, १५^०, वाथी १,
 ३, २, २९, वैथी ५, ३ १६^०,
 हिथी १, ७, ३४^०, ष्विनैपम्
 आपथी ६, ६, ७, १५, ५, माथी
 ६, १०, ७, माथी १, ६, १, १८,
 वाथी १, ५, २, १९, हिथी ३, ७,
 ३१
 विनिनीयेत् वीथी १८, ४५-
 ३९
 वि-नय- पाण ५, ४, ३४, -यात्
 अण ७०^०, १, १, -येन अण ७०^०,
 १, २
 वैनयिक- पा ५, ४, ३४
 विनया(य-आ) कृति शीचा-
 (य आ) चार-मुक्त- कम्
 अण ३, १, १३
 विनया(य आ) म्(त >) ता-

-ता कण २, १०, ९.
 वि-नायक- -कः माण २, १४,
 २११, -कम् वैण १, ४ ५१,
 शंष ११६-२८, वीथ २, ५,
 २१, अण ३, १, -का वैण
 ६७ : ५^१, -कान् माण २, १४,
 १; -केभ्य अण ३५, २, ८,
 -कै माण २, १४, १४.
 वैनायक- कम् अण १,
 १८.
 विनायक-के(ता >) न- -न
 अण २०, ३, १
 विनायके(क ष) पसृष्ट-लक्षण-
 -णम् वैण ६७ ९
 विनायक्^१ हिथी ५, १, ४५
 वि-निनीयमान- -य शीथी १७,
 १७, ३
 वि-नीय, ता- -ता विध ९३, ९,
 शैशि १६३, वासि १, २८,
 -तस्य वाध २५ २, -तया कण
 २, १०, ३, -तानाम् आपम १,
 २०, ८, २, २९, १४, -ते विध
 ९९, २०.
 वैनीयक- पाण २, ४, ३१
 विनीय-क्रोध- -य पाण १०,
 १
 विनीय-क्रोधं हर्ष- -र्ष. वाध
 ८, १.
 विनीय-वृत् अण ८, १, ३,
 विध १, २९.
 विनीय-वेप- -ये विध ९९ १८
 वि-नीय वीथी ५, ३, १५, माथी
 ८, ३, २४×४, माथी
 वि-नीय- पा ३, १, ११७

a) विनि ष्व^० इति आन । b) वस > वस । c) पाठे पृ १४४२ h द. । d) पाठे, वैप १
 विनैत् तै १, १, १०, ३ टि द । e) = देव-विशेष, वा गणेश- वा । f) सार्वदेवकीय प्र । g) वस ।
 h) वि नाययन् इति वा विनाययन् इति वा शोध । उप्र. माथी ८, ३, २४ वीथी इति पाठे । i) तस्यैवकीयम्
 उक् प्र (दू पाठम्) ।

विन्नेव्यमाण- एा कीम् ३६, २२.

वि०सुद, विनुद्वे आपथौ २२, ५,

१८, हिथौ १७, २, ४५,

विनुदन्ति शायौ १४, ३८, ३;

वि० सुद आपथौ ७, ६, ७१,

वि० सुद आपथौ २०, २०, ७१

वि०नुत्ति- नत्तिना शायौ १४, ३८,

१, -ले शायौ १४, ३८, २, ४,

-रया आपथौ २२, ५, १८,

हिथौ १७, २, ४५

विनुद्वे(नि-अ)विमृति- -ती

शायौ १४, ३८, १, -स्योः आथौ

२, ८, १९, शायौ १४, ८, १२,

१५, ११, १०, वैताथौ ४०, ३

वि०नुद्वे शायौ १४, ३८, १९.

वि०नुद्वे- नद्वे शाय ४६, ७१.

वि०नुद्वे शायौ १७, १२, १३.

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे- द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द.

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

वि०नुद्वे- वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) द

विन्ध(नि-अ)स्त- -स्तम् माशि २,

६, -स्तैः अप २१, ६, ६

विन्धस्तो(स्त-उ)दकुम्भ-सहि-

रण्य-बोज-विटिका- -कायाम्

माय २, ६, ४.

विन्ध(नि-अ)स्य आग्रिण २, ४, ११ :

१५, १६, वैए

वि०नुद्वे (वि०नुद्वे) > वि०नुद्वे- वि०नुद्वे

शायौ १८, २३, २, आपथौ

१२, १४, १५ हिथौ ८, ४, १७,

अप ४८, ८२, निध २, ५, ३,

१५

वि०नुद्वे- एा अप ४८, १०२,

निध १, ११.

वि०नुद्वे, प्रा- पाठ २, २८, -प्र-

शायौ १, ६, १×२, शायौ,

कप २, १, १, ३, १×२, अप ६६,

३, ४, ७०, १२, ५, वाय ३, ११,

६, १६, ८, ८, १४, ३०, २७,

३, २८, १, शय ८८, ९४,

३२५, ४२२, ४४१, ४४२,

४५४, वीध १, ५, १८, १२६, ११,

३२, २, २, ६७, ४, ५, १८, ६,

१०, ७, १, १०, ८, २, विप्र २८,

४७, ५१, ५९, ७५, १२, ९३,

१२, सुप्र ५२, सुप्र ४, १९०,

माशि ३, ७, कीलि ३३, ५३,

जनिष् ८ ४१, आज्यो १४, १२,

-प्रम् वीधौ ३, ९ १९, वीध,

कप २, ३, ६, अप ३८२, विप्र

६७, ३५, ८३, २१, या १४,

३२१, -प्रत्य १ आथौ ३, ७,

५, ४, १३, ७, शायौ, हिथौ

६, ३, २, कप १, ६, १०, अप

२४, ३, ३, वाय १६, ३६, २८,

१७, शय २०७, वीध १, ४, २,

विप्र ३०, ४४, ५४, ३०, -मा

आथौ ४, ६, ३१, वीधौ, आथ

३, ४, १, वीध २, ५, १, शय ४,

९, ३, अप ७०, १, ७, ३, ३, शय

२८, ४४०, वीध ३, १, ८, २, ४,

१५, सुप्र १५, सुप्र ३, ३६, या

७, १८, १०, १९, १४, १५, १५,

आथि १, २, -१०मा शायौ १८,

१५, ५, वीध २, ५, १४, अप

४४, ४, १२, -प्राणाम् कप २,

३, ६, अप २६, ४, २, ५०, ५,

३, ७०, ७, ५, १०, २, ७०, १,

२, वाय, -प्राम् कप २, १, १०,

वैध ३, १२, १०, १३, १, -प्राम्

कप २, २, १, अप ३१, १, ३, ५४,

१, ३, ७०, १, ३×२, शय, -आप

शायौ १२, १६, ११, वीध १,

१, २९, कप ३, ४, ६, अप ४, २,

७, ९, ९, २, ३, वाय, -प्राणाम्

वैध ३, १४, १०, १५, १, ३,

५, ७, १०, ११, -११मा वैध

३, १७ ४, ४, १२, ६, सुप्र २,

१०, ७८, ५१, ७, १९, १४, ३०,

-प्रे कप २, ५, ९, वाय ३, १०,

विप्र ९३, ७, ९९ ११, -११मा

कीम् १०८, २, अपाय २, ७,

-प्रेम्य. अप १०, १, १२, १३,

५, ४, १६, २, २, ६८, २,

६०, ७०, ३, १, ७०, १७, १,

-प्रेम्य वीध २, ५, १३, अप

६७, ८, ५, वाय २७, ९, विप्र

६७, ३६, १११. -प्रेः वीधौ १,

a) = एकाह-विशेष-। b) एकाहयो दस । c) पामे वै १ विनुद्वे शौ १२, २, ४५ टि द. ।

d) "सुप्र इति पाठ । अनि शोध (H BC) । e) वै १ द. । f) = पर्वत-विशेष-। g) पाठ ।

अनि. शोध (H गोमिनीयथाद्वय ११, १५) । h) विप्र (विद्वि) । वस > वस. > द्रग > नलो दग ।

i) = सुप्र-। j) = मेधाविन- (वैध. दे विप्र इति) । k) = वाम्-। l) = प्राणाय- मेधाविन- ।

४ : १; कश्चिद्, ८, १४; अत्र १, ३७, ५१; छ, २, १५x; अर्धो; -प्रो संघ छ १; छ २९; वैष ३, ११, ४.
 विप्र-कर्मन्- -न्यायाम् वैष ३, १३, ८.
 विप्र-कर्मन्-विद्-जाति- -ति: विष ५५, १४.
 विप्र-कृति- -ति: कर्म २, १०, १३६.
 विप्र-कृति-कृत्- -कृत् वाच २७५: ७.
 विप्र-कर्मन्- -न्यु: कर्म २, ५, २४; शुभ १, १९२; साज २, ४५९.
 विप्र-मुखा(स-अ)सि- -सिपु वाच ३०, ६.
 विप्र-वचस- -वस: कर्म ८, १९१.
 विप्र-विद्- -विरौ वीष २, ३, ७१.
 विप्र-वृद्धि- -वृद्धि अत्र ५०, ६, १.
 विप्र-वत्-विवृत्त- -वत्: संघ २७५.
 विमा (प्र-आ)दि- -दि वीष छ, ८, ४.
 विमि: (प्र-अ)तुमदित- -त: आधौ १, ३, ६; शोधौ १, ४, १९.
 विमा(प्र-अ)मत्- -वे वीषि २, १०, १; ४.
 विमि(प्र-इ)वत्- -राणाम् संघ २५५

वि-पक्ष- -क्षत्र अत्र छ १, ४, ३०; -क्षत्र अत्र छ २, २, १०; -क्षे काशी छ, ३, २५; वीथी २४, १६: १०^३; ११; १३.
 वि-पक्ष- -क्षत्र वीथी १५, २४: ५; हिथी १४, ३, २५.
 वि/पत्, विपत्तयु: काशी २४, ३, १०
 विपत्तये अत्र ५७, ४, ७.
 वि-पक्ष- > विपक्ष(सा) > -क्ष: या ३, १२^१.
 वि-पत्तयु आधौ ११, ६, ३.
 वि-पक्ष- -कात् आपध १, १०, २९; द्वि १, ३, ५६.
 तिपक्ष- > विपक्षी- पागम ५६.
 वि/पत् > वि-पात्न- -पात् या ९, २६.
 वि/पत् (गती), विपत्तयु: वीथी २७, १: १३.
 विपत्तयु वाधुथी ३, १४: २०;
 विपत्तयुति वाधुथी ३, १४: ४; ११; १३; १७.
 वि(पातनामति) मञ्ज ४, ७१.
 वि-पात्- पाग ५, १, १२४; ४, २९७.
 वैपाल्य- पा ५, १, १२४.
 विपात्-क- पा ५, ४, २९.
 रवि-पथ- > -प-स्य- -स्य: वीथी २८, १३: २१.
 रवि-पथ- -थ: काशी २२, ४, १६; आपधौ २२, ५, ५; द्विथी १७, २, ३१; शाशी ८, ६, ९^३; -धम् वीथी १२, १६: ५; ६; ७^३; १५, ३७: ३; -थौ वीथी १५, २८: १०.
 विपथ-वत्- -त्तीनाम् वाधुथी ३,

७५: ६१^३.
 विपथ-युग- -गेन आपधौ छ, २, ६; आपध ६, ५.
 विपथयुग-मा(प्र >)थी- -थी द्विथु २, ३४; -थीम् द्विथी छ, १, ३९.
 वि-पथिन्- -थिन: आपधौ २०, ५, १३१^३.
 रविपथ- > रविपथ- (पा.) पागध, ३, ६०.
 वि/पत्, विपत्तये वीथ १४१, ४३; अत्र ५९, १, १४; विपत्तये वी ६७, ५, २.
 वि-पत्ति- -पत्ता ३, ३, १०८^१; -त्ती वारध छ २: २२.
 वि-पत्- -पावाप ३, ३, १०८;
 -पदम् कर्म ३, ७, १३.
 विपत्-कर- -रम् आपधौ ९, ६; -रे आपधौ १०, ५, ११, ३.
 वि/पत् (स्तुती) > वि-पत्तयु- -न्यया काशी १८, ३, २; -न्या कर्म २, ६४.
 वि-पत्तयु- -न्यय: विष ३, १५; शुभ ५, ३७.
 वि-परा/मृत् > विपरा-मृत्- -मृत् वाधुथी छ, १०: २१.
 वि-परा-यत्- -विररे (रा/इ) द.
 वि परि/कम् > विपरि-कम् वीथी २०, २: ४३.
 वि-परि/कम्, विपरिकामम् वीथी १५, २८: ७; द्विथी ८, ७, १३.
 विपरिकामम् आपधौ ८, १५; १; १६, १५; वीथी ५, १३: १२x; आधौ; विपरिकामम्

a) व्यय. । बस. । b) वस. > मलो. करा. । c) वैष १ द. । d) वस. । e) = स्तु- । f) = प्रति-वद्. । g) नाप. (वीष-). । h) विद्या इति पाका. । i) प्रात्. । j) = [अनामिकाभिन्] स्थ- । वैष १ द. । k) रात्र. विपथयुगोनाम् <> विपथिनः इति पागे. । l) द्वि. पागम. । m) रात्र. काठ २७, ८ परीपाताम् इति, आपधौ १२, २२, ७ परिक्रमणः इति च पागे. ।

बौधौ २१, ५० ११
 वे परि ✓धा, विपरिघचे बाधूथी ३,
 १८ १४, विपरिदधावहै बौधौ
 ३, १३ ११
 विपरि दधान- ने कौसू १७, ५
 विपरि धान- नम् कौसू १७, २९,
 -ने बौधौ २०, २३: १
 विपरिधाना(न-अ)न्त- न्तम्
 कौसू १७, ११
 विपरि धाव बौधौ २०, २३ २,
 ४, गोष्ठ १, २, २२
 वि परि ✓या, विपरियाति आपथी
 २२, १९, १३.
 वि परि ✓याच्, विपरिवाचेत आपथी
 २२ १, ८, द्विथी १७, १, १७
 वि-परि ✓वृत् विपरिवर्तयति वाथी
 २, १ ३, ८, विपरिवर्तयेषु लाथी
 १०, ५ १३
 वि परि ✓हन् > विपरि-इत्-
 -इन्वी द्विथी ८, ७, १३
 वि परि ✓ह्, विपरिहरति बौधौ २२,
 ९ ५, माथी १, ७, ६, २९,
 छम् १, ११ २०xx, निह
 ८, ९ ३५ विपरिहरत माथी
 १, ७, ४, ९, वाथी १, ७,
 २, २५ द्विथी ५, २, ४२,
 विपरिहरति आपथी ८, १५,
 १, १६, १५ बौधौ ५, १३
 १० १४ २०xx, माथी,
 विपरिहोत् माथी ८, २, १२,
 बौधौ १० २६ १xx, माथी,
 विपरिहोत्पाताम् बौधौ २१, ५
 ९, १०, विपरिहोरेषु आपथी
 ९, १६, ९, माथी ९, १९, १,

द्विथी १५, ४, ४६, ४७
 विपरि-हरत्- नन् काथी १७ ५,
 २३
 विपरि-ह्वत्- तानाम् बौधौ २५,
 ३ १४
 विपरि ह्वय वाथी ३, १३, १८, ८,
 ९, ३
 वि-परी(रि✓इ) विपरिव्यन्ति या १४,
 २१
 विपरिव्यन्ति वाथी १, ७, ४, ३२,
 विपर्येयि या ७, २३, विपरीयात्
 द्विथी ५ ५, १७, दाथी १३, ३,
 ३
 विपरी(रि इ)त्, ता- न्त छम्
 २, ५-१, २६, अय, -तम्
 आपथी २, १३, ८, २०, ४, ३, १,
 ४, २, ४ ६xx, बौधौ, -तस्य था
 ३, १८, ४, ९, ६, २०xx, प्राप्ता,
 पावा १, ४, ५१०, -ता निह १,
 ३ ४, अय २४, १, ५, द्विथु ३,
 ४५ काअ १, ४, ८, २ ८, ४६, छम्
 १, ४ २०xx, ५ ५५, प्राप्ता १६,
 ५८, -ता. आथी ६, १४, ४, अय
 ६१, १, ६, गौष ११, ३२, आपथु
 १०, ९, -तात् या ३ २०xx,
 पावा ४, २, ९३, -तात् आपथी
 १७, ११, ५, -ते वाथी ७, ६,
 ४६, ८, ५, ८, ९, १, ४,
 आपथी १८, १, ६, द्विथी, -तौ
 आथी ५ ३, २७, आपथी २,
 ३, ८, १२ १३, ८, १७ १४,
 १०. वैथी
 वैपरीत्य- न्यम् भाति ३३,
 १२३

विपरीत क- -क वप्र १, ३, ९,
 कौशि ६३
 विपरीत-चेतम्- -तसि थाप
 २७७
 विपरीत-वर्मा(भ-आ)स्तरण-
 > ण परिव्रकरण पात्रसादन-
 शोक्षणीसस्कार मद्रा प्रणीता इयि
 निर्वाण्ण(ए-आ)पसस्कार सु-
 ब्रामार्जन परिचिपरिवेत्ते
 (न इ)पमाभ्याधान-विपरीत-
 -वेष्टु बोध ४ ७, १
 विपरीत नामधेय- न्य बौधौ
 २४, ३३ १३
 विपरीत-पाद-त्(कम् >)
 इमा- इमा अज ८, ८, ११, २,
 १२, १, २, १३, १, -इमा अज
 ३, २६, १०, ५
 विपरीत-अचार-ता- ता अय
 ६४, ४, ३
 विपरीत वत् भाथी ९ १५, १०
 विपरीता (ता अ)न- -त.
 श्वा १८, १५
 विपरीतो(ता-त्)त्- र श्वा
 १ ११, ५ २, ४, ४६
 विपर्ये(रि-अ)य- य वाथी ४, ६,
 ३, लाथी ६, ५ २९, अय ५१,
 ३ ४xx, प्राप्ता, -यन् अय
 ७१, ११, १, -यात् प्राप्ता ११,
 ६९, -ये भाथी ९, १९, ७, अय
 ५१, ३, २, राप ३३०, बौध
 १, ८, १२, विप, -येण निह
 ८, ४ ९, प्राप्ता १४, ४४
 विपर्यय निमित्त- तानि अय
 ६५ २, १

a) वत् । b) अर्वा इति पाठ । वति शोष (तु आपथी) । c) गत उप द्वा प्र । d) रपा
 काठ २७ ८ अर्वात् इति, आपथी १२, २२, ७ वैथी १५, २८ ७ अर्वात् इति च पाठे । e) तु पाणन ।
 f) = विटारण्डिका- [छन्दो विशेषे] । g) तु शान । h) स्तार्थे प्र । i) द्वग > क्य ।
 k) वत् > वत् । l) अक्षयम् (!) इति च । m) अक्षयम् इति च ।

वि-परै(रा/इ), वृषिपरितम् आपसं
 १,९, ५; पाठ १, ८, ९; काठ
 २५, ४६; शौर १, ५, २८; माण्ड.
 विपसा-वत्- -वन्तौ आपसौ ८, ६,
 २५; भाषी ८, ८, १२; वैश्वी
 ८, १२: १०; द्विषी ५, २, ५१.
 विपरे(रा-इ)य्य शौधौ १८, २५: ४.
 वि-पर्यै(रि/अ)स् (क्षेपणे), विपर्यैस्वेत्
 शाश्वी १२, ११, ९; १६, ७, १२;
 २१, २२; शंष ४५५; शौष २०,
 ४; विपर्यैस्वेतु: शाश्वी १३, १, ५;
 शौष २०, ३.
 विपर्यासयन्ति द्विषी १८, ४, ३५.
 विपर्यै(रि-अ)स्त, स्ता- -स्तम् माम्
 ३, १०; आपञ्च ५, १; द्विष्ट २, ८;
 ३९; -स्ता वीथी ३०, २: १३०;
 -स्ता: कैशौ १८, २: ६६; अप
 ७०, १५, ५; -स्ताम् अप ४६,
 २, ३; -स्तौ शाश्वी १२, ४, ६;
 १४, ५२, ८.
 विपर्यैस्त-द्विषि- -विषि वीथी
 २३, २-३: १.
 विपर्यै(रि-अ)स्य काशौ १, ७, २६ x x;
 वीथी ७, १६: १९; २२; ३१ x x;
 वैश्वी.
 विपर्यै(रि-अ)स्वत्- -स्वन् आपसौ
 ७, २५, १७
 विपर्या(रि-आ)स- -स: आशौ ४,
 ८, ११; शाश्वी ५, ११, ९; १४;
 ८, १२, २; लाश्वी, -सम् शाश्वी
 १३, १, ६; काशौ १९, १, १७;
 -सात् मीस् ११, ४, ५६, -से
 आशौ १, १२, ३१; आपसौ ९,
 १६, १०; वीथी २७, १: २०;

२: १३ x x; वैश्वी.
 विपर्यास-निवृत्त(ति-अ)थं-
 -थं पावा ३, १, ४०.
 विपर्या(रि-आ)सम् शाश्वी ११, ४,
 ३; १६, १०, १२; वीथी.
 वि-पर्याय- -ये निवृत् ३, १३: ४३.
 वि-पर्या(रि-आ)वृत्, विपर्यायतेत
 कौस्त १, २६.
 वि-पर्यव- -वम् द्विषी १२, ६, ६;
 या २, २५६.
 वि-पर्यव- -वान्म या २, २५.
 वि-पले(त्वा < रा/अ)य् विपलापन्त
 बाधुश्री ४, ५१: १.
 वि-पञ्च, विपर्यामि शौष ४, ४;
 वि-पञ्च आपसौ १३, ६, १४;
 माश्वी २, ४, ५, १६; वैश्वी १६,
 ७: ६०; द्विषी १०, ४, ४८; वि-
 (पस्य) काशौ १०, २, १६; वैश्वी
 १६, ७: ६; द्विषी १०, ४, ४८;
 विपर्येत् वैश्वी १७: १९.
 *वि-पञ्च- > *वि-पञ्च-चित्-
 -चित् वैताश्वी १४, १; शौर २,
 ७, १४; आपस: -चित: आपसौ
 १६, २९, १; वीथी ६, २४:
 २१; २, २: २; वैश्वी; -चितम्
 श्रुपा ८, २८; -चिता वीथी
 ६, १२: १६; श्रुप ७०, ५,
 १; ७, ६; -चिते आपसौ १९,
 १३, १५; वीथी १९, ५ ११,
 द्विषी २३, २, ४७.
 वि-पञ्चव- -वन् अप ४८,
 ११६५.
 वि-पञ्च(वन्धने)व, ववाश्चन्त या ९,
 २६.

वि-पाञ्चन- -नात् या ४, ३; ९, १६.
 रविपाञ्च- > वैपञ्चित- -उ: आश्वी
 १०, ७, ११.
 रविपञ्चत्- > वैपञ्चत- -उ: आश्वी
 १६, २, २५.
 वि-पा(वाने), व्यपिय: आपसौ १९,
 २, १९१.
 वि-वि-पाप- -नस्य छुम् २, ११:
 ११; वनिष्ठ ७: २७; -ना
 आपसौ १९, २, १९.
 वि-पीत- > पित (त-अ)थं- -थं
 या १, २०.
 वि-पाक- वि-पञ्च द.
 वि-पात- -त- - वि-पञ्च द.
 वि-पा(त्क)विका- पाण ५, २,
 १७; पावाण ५, २, १०३.
 वैपादिक- पावा ५, २, १०३.
 विपादिका- -पा ५, २, १७.
 वि-पाप- -न: माश्वी ५, २, ८, २५;
 काठ ४, २१; शौष २७, १, ७.
 वि-पाप्मान्- -प्मा आपसौ २१, ११;
 २१; वीथी २, २, १६;
 २८, २: ३८; ४०; बाधुश्वी,
 -प्मानम् बाधुश्वी ४, ८६: ६;
 -प्मानि बाधुश्वी ४, ५९: ७, ८.
 रविपाञ्च(श)व- > वैपाञ्च- पा ४,
 १, ११२.
 वैपाञ्चान- पाण ४, १, ९८.
 वैपाञ्चान्य- पा ५, ३, ११३.
 रविपाञ्च- पाण ५, ४, १०७, -पाट
 वृदे १, ११४; निप ५, ३१;
 या १, २६६; ३९१; शक्ति
 ३१७१, -पाण: पा ४, २,
 ७४; -पाणि या ११, ४८१६.

a) पाठे. वैप १, १९५६ ० द. । b) पाठ: विपर्यैस्य इति शोध: (द्र. कान्ठ १, २८) । c) प्राठ. ।
 d) वैप १ द. । e) वि-पञ्च इति पाठ: इति यति. शोध: (द्र. द्विषी.) । f) *व्वा इति पाठ: इति यति. शोध:
 (द्र. आपसौ.) । g) पा ३, १, २५ परामृष्ट: द. । h) व्यप. । i) परस्परं पाठे. । j) = पञ्च-वैप-प्राठ. ।
 k) पाठे. वैप १ से ४, १३, ४ द्वि. द. । l) पाका. पाठ: । m) = नदी-विशेष- ।

विपा(र >) दृष्टु (<शु) तृती-
-शो: वृदे ४, १०६; या २, २४;
-द्विती या ९, ३८.

विपाश- (> वैपाशक- पा.) पाग
४, २, ८०.

वि-पाशन- वि/पा (वाग्ने) द्र.

वि-पाशा- -शापाय विध ८५, ४५.

विपिन- पाठ २, ५२.

वि/विष्, विष्, विपिगति वा ६, ११

वि-विश्रित- न्तम् या ८, ११.

वि-विपात- वि/पा (पाणे) द्र.

वि/विष् > वि-विष्य आपथी ९, ५,
३; हिश्री १५, २, ३.

विपीतार्थ- वि/पा (पाणे) द्र.

वि-पु(सु >) स्त्री- -तीम् पाठ २, ५, १

वि-पुटी- -यम् काथी २५, ७, १८.

वि-पुल, ला- -रुम् पाठ २, ६,

२४; अप ६१, १, ८; वृदे ५, ७०;

कौशि ३६, ४२; -ला: अप ७१,

५, ४; ८, ४; -लात् अप २०, ५,

४, ३०, ४, २; विध ९०, २९;

-लात् अप २२, १०, ३; ६८, १,

२४; -ला: अप ६८, १, २५.

विपुल-वेजन्- -जस: अप ५२,

२, १.

रविपु(ल >) ला- -ला नाशि २,

५, २.

वि/पुष > वि-पुष्टि- -ष्टी काथी

१९, ५, ५; लाथी ५, ४, १८;

वेताथी ३०, १९.

वि/पुष, विपुनाति या ५, ५, १२, २०.

वि-पुष- पा ३, १, ११७.

वि-पुर्व- -र्वस्य वा १२, १६९.

वि/पुष्, ऋच्, ऌच् ... ष्टकाम

हिश्री १३, २, ३०९; ऋच्...
शुक्ल आपथी १८, ७, १; वीथी
११, ११: १; वाथी.

वि-पुर्व- -पुष: काथी १२, २,
३२९; आपथी १२, ३, ७३; १८,
७, १६; वीथी ७, १: २१३; ११,
११: १६; वाथी ३, १, २, ३६९;

वैथी १७, १७: ४९; हिश्री ८,
१, ३१३; १३, २, ३००; कुष २,
३७५९; -पुष: आपथी ९, ३,
२०; वैथी २०, ८: ४; -पुषे

आपथी ९, ३, १९१; -पुषो काथी
१४, ३, ८६.

वि-पुषि- -पुषे: वैथी २०, ८: ३;

हिश्री १५, १, ६८.

वि-पुष्ट- -ष्ट् आपथी ९, ३,
२०; वैथी २०, ८: ५.

वि/पु, प्रच्छ, विपुच्छति शीथी
१२, १७, १; वीथी ७, १७:
१; ८, १४: १; १६, ८: ८;

विपुच्छामि ऋषा १६, ४१.

वि-प्रद- पाग ५, १, ६४; -दः
पा १, ४, २९.

वैप्रदितक- पा ५, १, ६४.

विपुथु- -थु: शीथी १४, ७२, ३.

वि-पेश(ल >) ला- -ला: माथी २,
५, २, १४.

विप्र- प्रष्ट. वि/पु द्र.

वि-प्र/कृष् > विप्र-वर्ष- पाग ५,
१, ६४; -वर्ष: मीथु १०, ६, १४;
११, २, १७; १२, २, ३३; -वर्ष

मीथु ४, १, ३३.
वैप्रवर्षिक- पा ५, १, ६४.

विप्र-वृष्ट- -ष्टम् वृदे २, १००.

वि-प्र/कृष् > विप्र-कीर्ष-> की-र्व-
-व्यात् शंष ५.

वि-प्र/कृष् > विप्र-कृष्ति->
कृष्पु (सिन्ध) पपात-
-ताम्बाम् वाथी २५, ४, १६.

वि-प्र/कृष् > विप्र-काम- -काम्
आपथी ९, ८, २; -म्ते आपथी
७, ७, ५; १५, २, १३; माथी
११, २, २१; हिश्री २४, १,
१४; आमिष्ट ३, ५, १: १५१;

वीथी १, १: १३.

विप्र-क्षत्रियं वि/पु द्र.

विप्रचिता, च^३]- (> वैप्रचिता, चि]
पा.) पाग ४, २, ८०.

विप्र-चिति- -सिम् कु २९, ५.

वि-प्र/चित्, विप्रचितेत आपथी
१०, १५, १४; १९, १२.

वि-प्र/च्यु > विप्र-व्यायन- -यम्
नितू ९, ७: ६.

विप्र-च्युव नितू ५, ६: ४.

विप्र-जति- वि/पु द्र.

वि-प्र/खुद > विप्र-गुप्तमान- -मे
वेताथी ४, ५.

वि-प्रति/पद्, विप्रतिपक्षे नितू
१, ११: ३१, २, १: ७; २८'xx.

विप्रतिपादयति नितू ३, १३: १.

विप्रति-वति- -ति: लाथी ६, १, १९;
वीथ १, १, १७; मीथु १, ३, ८;

-वितम् अप ३, ३, १; -वित: मीथु
१०, ४, ३१; -वो वीथ ११,
२७; १३, १; २८, ५१; मीथु.

विप्रति-वष्ट, ला- -न्तम् आपथ २,
२७, ४; हिप २, ५, २२३;

-व्यानाम् आपथ २, १०, १२;

a) = नदी-विशेष-। b) = (विरुद्धपुंसलक्षण-) स्त्री-। c) वल-। d) वेत् १ द्र-। e) = छन्दो-
विशेष-। f) = रवि-पुष्- (सु. वेत् १): g) परस्परं पाथे-। h) पाथे- वैप १ विपुष: तै ३, १, ६, २ टि. द्र-।
i) सप- श्चे <> च्ये इति पाथे-। j) = रविपक्ष- इति Pw. प्रष्ट., C. (द्र. ला १७, १, १४) व-। k) विप-।
शश-। l) सोपार्थे वृ २-२१ p द्र-। m) पाका- पाथि- पायन- पाठ-। n) = दानव-विशेष-।
१९४-१५

हिष २४, १२, श्रवा १७, २१.
 विप्रति-पाद्य हिथी १, २, ७०
वि प्रति <वि (<सि)प् > विप्रति-
 सिद्धा- -दम् आपथ १,
 १३, २१, २, १४, १०, २१, १५,
 हिष, पा २, ४, १३, -दा आपथ
 २, ८, १२, हिष २, १, ११४, -दे
 मीस् ४, ४, २१, -हेपु पावा
 २, २, २९.
 विप्रतिपिद्-धर्म- -मार्णाम्
 मीस् १२, २, २३
 विप्रतिपिदा(द-अ)र्थ- -यां
 या १, १५ १६
 विप्रतिपेध- -व पावा १, ४, २,
 ८, २, १, -वा निस् २ १
 २४, -वात् आपथी २४, १
 २०, निस् २, १ २२, पावा,
 -वे वैश्री १, १ ६, हिथी ३,
 २, ३०, ८, २८, आपथ, -धेन
 पावा १, २, ५, ४, १०८, २, १,
 ६९x
 विप्रतिपथा(अ)नुपपत्ति-
 ति पावा १, १, ६२, ४, ३,
 १३३, ६ १, १५४, ३, ३३
 विप्रतिपथ(अ)र्थ- -धंस्
 पावा ७ १, ७३
विप्र तुष्टि- <विप् द्र
वि <प्रभृ, विप्रयते वा ८, ९, वि
 प्रयत् वा ८, ९, १, १, विप्रयस्व
 वीथी १, १५ १४, माथी २,
 १३, १, माथी २, ३, ७, २
 विप्रये माथी २, १०, २१
विप्र-चन्पु- <विप् द्र
वि-प्र <मुच्, विप्रमुच्यते वीथ १, १,
 ३३'
 विप्र मुच्य वा. १ १, ६, ६, ३, वाप.

वि प्र <युज् > विप्र-युज्यमान- -नम्
 निस् ४, ८ १६
 विप्र-योग- पाय ५, १, ६४, -ग
 शंथी ७ २६, ९, निस् ८, १
 २५, वैष १, ३, ६, मीस् ११
 ३, ४१, -नम् विग २६, ३७,
 -मो मीस् ३, १, ९, ८, १६, ६,
 ४, ४७.
 वैप्रयोगिह- पा ५ १, ६४
 विप्रयोगा(त-अ)न्त- -न्ता
 व्र ३, ३, ८
वि-प्र <लप् > विप्र लप- -ये पा १,
 ३, ५०
विप्र-यच्छ- <विप् द्र
 विप्र <यद्, विप्रयदन्ति वृदे ४, १०
 विप्र-वाह- -वा वृदे २, १३१
वि प्र <वस् (निवाते) > विप्र-वास-
 -स वीथ १, ६४, -सम् आपथी
 ७, १०, -से आपथ १, ३, ३३,
 ३४, २, १४, २०, हिष १, १,
 १०८, १०९
 विप्र-वासि (त) हा- -वा वाव
 २८, २
 विप्रो(प्र-उ)पित- -स वीथी ९,
 २० १८^७, वाप ३, १
 वि प्रो(प्र उ)प्य वीथ ३, १०, ३५,
 शाय, वीथ १६, ३३^७
विप्रवसति वीथ ३, ४, ५
वि प्र <विश् > विप्र वि(ह) हा-
 -हा वीथी २४, २१ २.
विप्र-विश- <विप् द्र
 वि प्र <वज्, विप्रयजत आपथ १, २९,
 ९, वीथ २, १, ४९ हिष १, ७,
 ६६, विप्रयजेयु काथी २४, ६,
 १३
 विप्र वज्- -जत वीथी १८, १८

१५
वि-प्रभ- वि <वृश् द्र
 वि प्र <स्था, विप्रतिष्ठन्ते वाप ६ ६,
 १५, विप्रतिष्ठन् पाप २, ११,
 १३
विप्र-स्व <विप् द्र.
वि प्रा (प्र <आ)प् > विप्रा(प्र-आ)प-
 -वात् या ७, १३^१, ९ २६
 विप्र(प्र-आ)स- -स या ६, २०
विपामाव- <विप् द्र
वि प्रिय - -य. वीथी १३, २० १०
वि <पु > वि प्रुत- -नम् आपथ ६,
 ११
वि <प्रप्, व्यपुष्पात् वाधृश्री ४, ८१^१
 १-३, ६-८
वि प्रुप् - -मुद् आपथी ९ ६, ८,
 वीथी २०, ११ ६, वैताथी २२,
 २५, -मुद्ग्य भावि २१^१,
 -मुप काथी ३, ८, ११, २६,
 ५, ६, आपथी १, १३, ७, ३,
 १०, ११, १२, ७, ११, वीथी,
 वाव ३, २७, ४२, वाव १६९
 विप २३, ५२, ५३, वीथ १,
 ४७, -मुपाम् शंथी ८, १५, ७,
 काथी ९ ६, २८, ११, १, १८,
 आपथी ६, १२, ६१, काथी ७
 ३५ १४
 वैपुप् - १७ वाज ३८ ४,
 -वात् आपथी १२, १६, १५
 १३, २, ७, १४, ९, ५ वैश्री, -वी
 माथी ५ २, १६, १३
विप्रु-हो (<हो)म- -मात्
 शंथी २४, ३, ३९, -मो काथी
 ५, २, ६
वि प्रुपित- ते वीथी १४ १३
 २५

a) वस । b) ण्यिते इति कथन सूत्रे । सप्र. वीथ ३, ४, ३४ अनुविरोपिते इति, वीथ १६, ३३
 विप्रोप्य इति च पाठे । c) मोपार्थं वृ १११५ वृ द । d) वेर ३ द । e) = होम- । तस्येदमीय सन् प्र ।

वि प्रे(प्र०इ) > विप्रे(प्र०इ) - नेयु
काथी ७, ५, १९

विप्रे(प्र०इ)तर- ✓विप् द

वि प्रो(प्र०उ)क्ष > विप्रो(प्र०उ)क्ष
वाय १ १६

विप्रोपित्त- ०य वि प्र०वस् द

वि✓प्लु, विप्लावयेत कौशु ४१, ५

वि प्लर- व रुध १४५

वि प्लु त > ला- ताम् आउथो
१२, ८

वि फल- लम् वैशु ५ ९:७, -ले
वृदे ५, ८२

वि फल- > 'फला(लफ ल) ह'-
रुम् काथी २१, ३, १०

विमिह- (> ह क- पा) पाग ४,
२, ८०

वि✓वष्, वृष्, विमश्रोयु दाथी १०,
२, १२, लाथी ३, १०, ११

रवि वष्ट- इ रवि १, १११,
-इम् आपथी २० ३, १९

वि-वय कौशु ७२, १५

वि-वन्धु- न्युषु कौशु ५, १, १४,
आमिष्ट ३, ५, १ ८, वीगि १,
२ १२, रवि १ ११

वि✓वाष्, वि 'वाषर आथी २,
१३ ८, वि(वाषर) काथी १६,
१, १४, आथी ७, ६, ७, १६,
४, १, वीथी, नम २, ३, १५,
शुभ २ ५३.

विषवाधे दैदि १, ११, विवाधिष्ठा
आमिष्ट १, ५, २ ५, वीष्ट १, ३,
१६

विषवाधिष्ठा आमिष्ट १, ५, २

विषवाधिष्ठा आमिष्ट १, ५, २

विषवाधिष्ठा आमिष्ट १, ५, २

५०, ३, ५, ४ १७, ८, २ ३३०,
वीष्ट १ ३, २६०, वीगि १, १५

४१, २, ४, १०.

वि 'वायधे रुद्रा ८, १०१

वि वि वाध- -०घ आमिष्ट १, ५,
२ ५, वीथी १, ३, ३६, -घ

वीथी १८, ४८ ३६

वि-वाधमान- -ने आपथी २१, १,
२०.

रवि वाध- > विविवाध-वत्- -नेते
वीथी १३, ३५ २, १८, ४८

४, मागि ५१

वि वि ल- लाव आपथी २, १९,
२, वीथी २०, ३०:५, हिथी १५,
८, २४१३

वि✓वुष्, विवृष्यते मप ६८ २, २९
वि वि वष- आथी ५, ५, १२, या
१२, ४.

वि वृष्ट- इम् काथी ७, ४, ३५

वि✓वृह वि✓वृद् द

वि वृह- > ऋ शाक-वृष- ये कौसु
३३, १४

वि✓वृ, विवृष्यत् वीथी १६, ६ ६,
७१, २३, ११ २, आपथ १,
३२, ३२, हिष १, ८, ६४,

विमृषु आपथी २१, ९, ३, हिथी
१६, ४, ५, दाथी ९ ३, २२

वि भक्त, क्त- , पत्ति- वि✓मञ् द

विममत्त- (> वैममत्त- पा) पाग
४, ७, ८०.

रवि-भम- वि✓मञ् द

वि✓मञ् (वष्ठा), विमज्जे माथी १,
२५७, विमज्जि आपथी १३,

५, ११, १७, २०, २, २४ ३, १०,
वीथी, वि वि भजति माथी २,
५, ४, २४, हिथी १५, ७, १३,

वेताथी १६, १५, विमज्जे वीथी
१५, २५ १२, विमज्जि आपथी

१२, ९, १७, विमज्जामि हिथी १,
६, ३५१, विमज्जाम वृदे ८, २९,

विमज्जामि आपथी २, २, ८,
आमिष्ट १ १, २: ३४, ५, १,

२६१, वीष्ट २, ५, १३, माग १,
६ ३, १३ ११, विमज्जयु

आपथी १३, ५ ११, वीथी ८ ५
१९, माथी, विमज्जय वृष्ट ४१,

७१, विमज्जय > जा वीथी ३,
२१ ७, १४, १४ ३, आपथ

१, १७, ७, हिष्ट १ ४, ३६, नम्रा
८, ३५, वि वि 'मज्ज आपथी ४,

१५, १, माथी ४, २१, १, हिथी
६, ४, १८, विमज्जय वृष्ट ५,

१६, १२ ३६, विमज्जय वीथी
१४, ५ २८, आपथ २, १४, ११,

वीथ २ २, २१, हिष २, ३, २२,
विमज्जय वृष्ट ४, ६४, १, ६,

७० १, विमज्जय वृदे ७, ११३,
विमज्जय वीथी ३, ३, ३, वीथी

३, ५ १५ ८, ३, ४, आपथी,
विमज्जय वृष्ट १८, १६,

१९ २९, २५, विमज्जय वीथी
१, ७ १८, २३, ३: १७, ९ २३,

वाध, विमज्जय वृष्ट १८, १, ६
विमज्जय वीथी ११, १, ९, विम

ज्जय वृष्ट ३, ८, १३, १६,
वि मज्जय- -वम् वीथी ४.

a) वस । b) = प्रमत्त- (वि-गुण) । उप < ✓क-फ (वृद्धी) इति आपथम् । < वि-गत्क इति

२ १५४ । c) वैप १ द । d) सवा मन्ना २, ५, ७ विषाधया इति पाठे । e) पाठे वैप १, १८१० b द ।

f) उा भागे धर्मदे म प्र । g) = एकाद विषेय- । h) विष्णु इति पाठः २ ननि सोध (गु आपथी) ।

i) पाठे वैप १ विमज्जय ल १, २२, १ टि द । j) = श्रेयस्विल विषेय- । k) पाठे वैप १ विमज्जयि

थी १९, २४, ६ टि द । l) विमज्जय इति पाठ २ ननि सोध (द सवा भाग १, १३: ११) ।

११८:३; विभ ९७, १९; वृदे
 ४,६; वेज्जो ४०; -कया
 भापथी १०,७,७; -कस्य विभ
 १८, १४; ३८; ३९; -का:
 पाधुथी ४, ६१:१०; ८६^१:९;
 वैथी १६,७:३; द्विथी १०, ४,
 ४३; विभ ६, ३६; १८, ४१;
 -कान् पाथी ३, २, ३, ४१;
 गौष १५,१८; -कानि निरु ६,
 ३:१; ९, ४:३२; -के वैथी
 १२, ४:१५; मीस् १०, ६, ५;
 पा २,३,४२; -कै: वीथी २,८:
 १३; वैथी १२, ७:१०; द्विथी
 ७,१,३९; -कौ निरु ६,४:१.
 विभक्त-काल^१-त्व-स्वात् मीस्
 २०,८,४१.
 विभक्त-नोदित-त्व-स्वात्
 मीस् १०,२,३८.
 विभक्त-ज-ज: गौष २८,३०;
 विभक्त-त्व-स्वात् मीस् ६,२,
 २१; ६, १४,९,२,१७.
 विभक्त-दाय^१-स्वात् गौष १,
 ५,१६.
 विभक्त-प्रकृति^१-त्व-स्वात् मीस्
 १०,३,६४.
 विभक्त-सिष्ट-त्व-स्वात् मीस्
 ६,६,९.
 विभक्त-स्तुति^१-ति वृदे ३,
 ४१, ८२; -तिस् या ७,८.
 विभक्त(क-प्र)दि-द्विषु पावा
 ३,४,६७.
 विभक्ति^१-कष्य: शीथी २, ५,
 २०^१; शीथी १, ५, १, १३^१;
 निरु ३, ९:३२; ४, १३:१३;
 वृदे १,४३; पावा ३, ३, १३३;

-क्ति: शुभ ३,१०:२१३; पा १,
 ४,१०४; ५, ३,१; ६,१, १६८;
 -क्तिनि: शीथी २, ८, ५^१;
 -क्तिम् शीथी १२, ९, १८;
 आपथी ५, २८, ८^१; वीथी^१
 १०, २३:१८××; वैथी १८,
 १५:७^१; निरु; -क्तिषु द्विवि
 १, ६; -क्ती^१ आपथी ५, २९,
 ५; वीथी ३, ३:२; भाथी ५,
 २१, ३; वैथी १, १०:१०;
 द्विथी ३,६,२४; -क्ती: आपथी
 ५, २६, ५^१; २८, ६; वीथी^१
 ३, २:५; २०, १९:१४;
 भाथी^१ ५,१८, १^१×××; शीथी^१
 १, ६, ५, ९××; वैथी^१ १,
 १९:७^१××; द्विथी^१ ३, ६,
 ५^१×××; निरु; -क्तीनाम्
 वीथी २०, १९:१३^१; निरु ३,
 ९:२४; -क्ते: पावा १,३, ६४;
 -कौ श्रमा ३,३,२१; पा १,३,
 ४^१××; पावा; -क्या शीथी १,
 ३,६; ६,३; ९, १; मीस् ६,१,९,
 वैभक्त^१-क: शीथी १, ३,
 २४; श्रत ५,७,१; -कम् निरु
 ९,११:२७; -कस्य पावा ६,
 १,८४; -के शीथी १,३,२४.
 विभक्ति-त्व-स्वे पावा ५,३,१.
 विभक्ति-निमित्त-स्वर^१-रात्
 पावा ६,१,१५४.
 विभक्ति-पर^१-रस्य पावा १,२,
 ६८.
 विभक्ति-परिज्ञान-नम् शुभ
 ८,३४.
 विभक्ति-प्रकृतिस्वरत्व-स्वे
 पावा ६,२,२.

विभक्ति-प्रायप-स्वे शुभ ५,
 १३.
 विभक्ति-रूप-नात्रि-स्वरत्व-
 -रेषु शौच २,५१.
 विभक्ति-लिङ्ग रूप-स्वे: भाथी
 १२९.
 विभक्ति-श्लोक-क: शीथी ५,
 २१,४.
 विभक्ति-लोप-पा: श्रत १, १,
 ६.
 विभक्ति-वचन-नम् पावा २,
 ३,१.
 विभक्ति-विशेष-निर्देश-क:
 पावा १,१,५५.
 विभक्तिविशेषनिर्देशा (क-अ)
 मन्काशत्व-स्वात् पावा १,
 १,६७.
 विभक्ति-न्यायव-स्वे मीस् १,
 ३,२९.
 विभक्ति-समीप-समुद्दि-भ्रमृदप
 (दि-अ)भावा (क-अ)व्यप
 (अ)संप्रति-कत्वमशुभवि-पभात्
 यथा (या-अ)नुपुर्व्वे-नौगण-
 सादृश्य-संपत्ति-सावल्या (स-अ)
 न्त-वचन-नेषु पा २,१,६.
 विभक्ति-स्वर-र: पावा ५, ३,
 १; -रात् पावा ६,१,१५४.
 विभक्तिस्वर-भाव-र: पावा
 ६,१,१६३.
 विभक्ति(क्ति-ई)पत्-स्वर-नम्
 पावा ६,२,५२.
 विभक्तय(क्ति-अ)न^१-शान्तम्
 पावा १,२,६४.
 विभक्तय(क्ति-अ)मान-प्रकृति-
 क: पावा २,३,१.

a) वस. । b) भाप., माप. (पारिभाषिक-संज्ञा- [पा.] । c) = मन्त्र-व्यतीत- (इ. शीमा १, ४) ।
 d) = [विभक्तिमन्त्रोपधेयत्वात्] दृष्टका- (इ. सूची) । e) सृष्टत् सपा. आपथी ५, २६, ५ वैथी १, १९:८ संकृती:
 इति पाठे. । f) तत्सुपेदमीषः षण् प्र. । g) वस. > वस. ।

विमक्तव्य(कि-अ)र्थ- -र्थः पावा २,३,१.
 विमक्तवर्षा(र्थ-अ) भिषाल- -ने पावा २,२,२४.
 विमक्तव्य(कि-अ)लोप- -पः पावा २,१,४.
 विभक्तव्य(कि-अ)गम-आविपदि- कान्त- -न्तस्य शौच ३, ७८.
 विमक्तव्य(कि-आ)देवा- -दाः अपरा २,१,२; -दाः पावा ५, ३,१०; ७,१,२६.
 वि-भक्तृ- -कारम् शुक ३, १३५.
 वि-भक्षमाण- -णः या ६,८.
 वि-भवत्- -जन् वीष्ट २,१०,७.
 विभजन्वी- -न्ती भाष्ट २, २: ११; वा ६,२८.
 वि-भज्य लाथी २, ४, ६३x४; आपथी.
 वि-भज्यमान- -ने अप्राय ३, २; शंघ २७६.
 वि-भाग- -नाः काथी २५, ११, ७; वीथी ११, १२: ४; कौत् ६३, १८; शंघ २४६; २७८; आपथ २,१४,१६; विष १८, ११; ४१; ९६,५६; हिष २, ३, २७; काशु ४,२; आपथ २,४; वीथु; -गात् काथी १२,९,१; आपथी १३,५, १०; वैलाथी १,१२; कौत् ६८, ५; कौष्ट; -गात् मौत् ७, १, १: १०,३, ४५; -ने कप ४७, १, ४; गौघ २८, ४; तैरा ३, १; पावा ३, ३, १३७; मौत् २, १, ४४; ३, २, २; -नेन वा ४, २७; मौत् १०, ३, ५०.
 विभाग-धर्म- -र्ता या ४,

१७.
 विभाग-ज्ञ- -ज्ञः काशु ७,५;६.
 विभाग-वस्त्र (:) अथ ४७, १,५.
 विभाग-मन्त्र- -न्त्रम् द्विथी ३,८, ६३; ६७; -न्त्रेण आपथी ८,१४,१३; १८; १२, ४, १२; १८,११, १३; माथी; द्विथी ५, १, १५०; १७; ४, २१x४.
 विभाग-वत् मौत् ३,२, ४०.
 विभाग-विद्- -वित् नाथि १, ६, ७.
 विभाग-धुति- -तो काथी २५, ११,५; मौत् ६,५, ४९.
 विभाग-संबोध- -गात् मौत् ६, ५, २५.
 विभागा(ग-अ)मन्त्रो(र-उ) व्यञ्ज- -नस्य विष १७, ३.
 विभागा(ग-अ)र्थ- -र्त्तम् नाथि १,६,७.
 वि-भाष- -न्यम् लाथी ७,६,२३; ७,१४; २६; -न्यानि लाथी ७, ५, २१; ७, १३; -न्येषु लाथी ७,६,८.
 वि-भाह- -भातः आपथ १, २३, २; हिष १,६,१०.
 वि-भाजन->वैभागव- -नम् आपथ १,२२,७, हिष १,६,७.
 वि-भाग्य लाथी ९,५,८.
 वि-भाहव- -न्यम् माष्ट २,१,७.
 वि-भाजयित्->वैभाजिय- पावा ४,४,४६.
 वि-भाह- -न्यम् विष १८,४४.
 वि/भञ्ज > र-भा- -भ्य विद् ३,१०: २०.
 वि-भय- , वि-भवत्- वि/भृ. ६.

वि/भा. विभावि आपथी १०,३,२;
 वीथी २८, ७: ५; माथी;
 वि...भावि आपथी ६,९, २१;
 वृषि(भाति) वाथी ३, १९, ११;
 आपथी १९, १८, १७; वीथी;
 विभाषु^१ आथी ५, १३, ६;
 वीथी ८, ३: १७; वृषिभादि
 आपथी २, १७, ४; ९,८, ८;
 २४, १३, ३; वीथी, हिष्ट २,
 १७, ३.
 वि-भा->भा-कर- पा ३,२,२१.
 विभा-न्यु- -न्युः आपथी
 २०, १३, ४०; द्विथी १४, ३,
 १००; अथ १५, १, ९; ४१, ४,
 ४; -न्योसो वीथी १०, ४: ८;
 वाष्ट ५, १, ८; आग्रिष्ट १, ५, ४:
 २३; वीष्ट.
 वि-भाह- -न्यम् आपथी ३, १३,
 ४, वीथी ३, २०: ८; माथी ४,
 १९, ९; वाधुथी; -नान्तम्
 वाधुथी ३, २०: ५.
 विभाती- -वीः आपथ २, ६,
 १५.
 वि-भाहव्य- -न्याः वाध २, ३७.
 वृषि-भाह(र>)री- -री अथ ४८,
 ११०; निप १, ८.
 वि/भाषु>वि-भाषा^१- -न्या याति
 २, ४५, ५७, -न्या द्विथी २३,
 १, २४; याति २, ५४; वा १,
 १, २८x४, पावा; -पाया-
 पावा ४, १, ५५; ५, १, २;
 -पायाम् पावा १, १, ४४;
 ४, १, ५५x४.
 वैभाषिह- -का तैरा २२,
 ७.

a) वा. किति. 1 b) वग. 1 c) पाठे. पु २०१२ ०६. 1 d) निप. (पुर-). स्तार्थे कण् प्र. 1
 e) पाठे. वैप १ विभाति मे ४,९,१३ टि. द. 1 f) पाठे. वैप १ काठ २,१५ टि. द. 1 g) वैप १ द. 1
 h) पाठे. वैप १ विभूयसुः अ २,८६,१० टि. द. 1 i) भाष. 1 जः प्र. (पा ३,३,१०३) 1

विभाषा प्रकरण- -णात् पावा
 ५ ३, ७७, ३, ९४, -णे पावा
 २, २, ३
 विभाषा प्रसङ्ग- -ङ् पावा ३,
 १, ९४^१
 विभाषा प्राप्त- -सम् शौच १, २
 विभाषा(धा ञ)मात्र- -र पावा
 ८, ३, ७९
 विभाषा(वा-ञ)र्ध- -र्धम् पावा
 ७, २, ३, ८, २, ८९
 विभाषा-वचन- -न्तम् पावा २,
 २, ३
 विभाषित- -त कौमु १४१, ४१,
 -तम् पा ७, ३, २५, ८, १, ५३,
 ७४, -तानि ऋष १, १, २८,
 २, ५, १, ३, २
 विभाषित गुण- -न्त. मा १०,
 १७
 वि०भाषा>वि-भाष- -भा शोभो
 ७, १, ६१^१
 वि०मिद्, ऋषि- -मिनति^१ आपशो
 ९ १९, ३, शोभो १४, १४.
 २, वैशो २०, ३७ ७, द्विषी
 १५, ८, १७, व्यभिक्त वाधुश्री
 ४ ५९^१ १, या ६, १९, ऋषि
 धमिनत् शोभो १२, १६, १,
 या ६, १९, विभिन्नात् द्विषी
 १३ ६, ३९
 वि सभेत् शत्रा २४०^१
 वि-भिद्- -द् सु २३, ६
 ऋषि भिन्दु^१ -न्दो. ऋष २ ८, २,
 वृदे ६ ४२
 वि-भेद- -नात् वा ९, ८

वि०भो, ऋषिभिनप शोभो २५
 २०. २४, माश्री २४, १, २९
 वि मीप- -पाग ३, १, १३४.
 वि मी- -न्ती कप्र ३, २, ११, विष
 १७, १
 विमीतक- -पाग ४, ३, १५४,
 -क वाधुश्री ४, ५९^२ १४^१,
 -कम् ऋष २६, ५, ३
 वैमीतक- -पा ४, ३, १५४, -क
 आपश्री २२, ४, ११, द्विषो २२,
 १, १, २, ११, -वम् आपश्री
 २, ५, ५: २, ७, -का शोभो
 २२, १९ ११, -कान् आपश
 २, २५, १२, द्विष २, ५, १९१
 विमीतक तिष्ठक-यावक-विग्य-
 राजपृष्ठ-शल्मलय (वी-ञ)रतु-
 दधिय-कोविदार-श्लेष्मातक-
 वर्जम्^१ वैश १, १ ०
 विमीदक- -क या ९, ८^१ ४,
 -कम् या ९, ८
 वैमीदक- -क काश्री २२, ३, १०,
 माश्री ५, १, ६, १३, १६, -कम्
 शोभो १४, १६ २, ४
 ?विभुवक्ष्यमाण- -न्त कौमु २३,
 १, ३८, २६
 वि०भू, विभवत् आपश्री १, १६,
 २, व्यभवत् या १३ ९, विभ
 वेत् आपश्री १२, २, ३
 व्यभूत् शोभो १८, ४५ १२
 विभावयेत् अप ७१, १८, ३.
 विभाव्यते अप ७१, १५, १,
 विष ११, ९, शोभि २९७
 विवोमुपत् शोभो ४, ९ १४^१.

वि-भव- -व शोभो १ १६ ५
 -वात् शोभो ५ १६, २ आपश्री
 २४, १२, ५, शोभ ५ २, ३१
 ११, १, ६०, -वे शोभ २३
 विष ७१, ९, वृदे ७ १२२
 विभव-वत्- -वत् आपश्री
 २, ६ ५ २३, शोभ २९ १२
 वि-भवत्- -वन्ति आपश्री १ २५
 २, १४, ५, ३, द्विषो १ १ ६१
 २, ८, २
 विभु- -पा ३, २, १८० -भव
 आपश्री २१, २३, १३ -व
 आपश्री १५३ -सु काश्री १
 ५, १६१, -ऋषु शोभो २८,
 ७ ६, शोभो ४, २, ४, काश्री
 २, २, १३, या १४, ११४
 -मुम् द्विषो ६, ४, २६१, अप
 ४०, ६, १६, अप ११६ ५४^१
 विष २, ६०, -मुत् काश ३२
 ३१, -ओभो वृदे ६ १११
 -ओ साध १ ३६१^१
 ऋषिभो- -न्ती शैवि ८९
 २६५ -भ्योम् अप २६ १ १
 ऋषिभु^१, ऋषि-दावत्- -न्त
 शोभो ७, ४ २१ काश २०
 २१, तैत्रा ३, ७
 ऋषिभु-वत्- -वत् काश्री १०
 ५, ९, ७, १३, आपश्री १३
 १२, २ शोभो, -वत् काश्री
 ५, १, १५ शोभो ६ ७, १०,
 शोभो ९ १० ११, द्विष २,
 १६, ४, -मन्तम् काश्री ५ ३
 १०, शोभो ६, ९ १३ -वत्

७) वय । ८) पाणि कैप १ २१८६ ६ ४ । ९) = समुत् विधिप- । १०) वैप १ ४ । ११) = १४
 विष्ण- । १२) वृ १८०७ वरथ निदेश नेट । १३) वृ १८०७ विमीत(वृ सग) > विमीद इति शोभ ।
 १४) = वैमीतक । १५) = विभाग करिष्यत्- इति दारिलादि । विभुवक्ष्यमाण- इति वरस्यं टि शोभ ।
 १६) मात्र, नाप (धन) । उप ऋष प्र । १७) = द्वादशसाध्याऽन्तम्- । १८) पाणे कैप ३, १९८ ८ ४ ।
 १९) "भु" इति पाठ पाठ । २०) सग क ४५, ९ विभुदान्ने इति पाणे ।

काथी १०,७,१३.
 ष्वि(मु>)भू-वसु^० -सु: वाथी
 ३, ४, ३, १^०.
 वि-भू^० - ष्विभू^० आषथी १४, २५,
 ११; वीथी २५, १९ : ३; द्विथी
 १५, ६, २९; - ष्विभू: शांथी ६,
 १२, ११; काथी ८, ६, १२××;
 २०, २, १^०; कापथी ५, १५, २××;
 २०, ५, १^०; ११, १^०; वीथी २,
 १८: ८××; १५, ७: १२^०;
 माथी, वाथी ३, ४, १, २९^०;
 द्विथी १४, १, ४५^०; शुज ३, ११.
 वि-भूत- ष्विभूत^० काथी ८, २१, ३;
 कापथं १, ११, १; कापथे ०, ३; माप
 १, १४, १६; -ताप या ११, ६.
 विभूत-वस- वस या २, १२.
 विभूत मनस्^० - ना। या १०,
 २६.
 वि-भूति^० - ति: माथी २, ४, १,
 ३१^०; विष ९९, ४; वृदे १,
 ७१; ३, १२३; -तिभि: या
 १४, १२; -तिष् वृदे ४, ३७;
 वा ४, २३; १४, ३; -त्या वृदे
 १, ३४; -त्या: विष ९९, ६.
 विभूति-स्थान-ज-मन्^० - म्म
 वृदे १, १६.
 विभूति-स्थान-संभव- न्यम्
 वृदे १, १०४; २, २०.
 विभूति(वि-म)र्थ- र्थं काप २६,
 ३, ५.
 वि-भूमन्^० - मने वाथी ३, २, १,
 ३०^०.

विभूवरि^० अषाढ ६, २^०.
 वि/भूप, विभूपयेव अष ७०^०, ९, १.
 वि-भूपण- न्यम् अष ६८, २, १०.
 वि-भूपिठ- ना: कप २, ८, ३;
 -तम् कप ३, २, ४; -ते विष
 ९९, १९; -तेषु विष ९९, १३.
 वि/भू> वि-भूत- ना: वीथी १०,
 ४: ११^०; -तम् कापथं २, ११,
 २२.
 वि/भ्रंश, विभ्रंशेत् कापथी २२,
 ६, १४; वाधुथी ३, ३९: १९;
 विभ्रंशेत् द्विथी १७, २, ५६;
 विभ्रंशेत् काथी २२, ४, ३३.
 वि-भ्रंश- -ने निम् ६, ९: ९.
 विभ्रंश-व्यञ्ज^० - ष्वे वीताथी ४०, ५.
 विभ्रंशा(श-भा)श(डा>)ङ्^० -
 -ङ्: निम् ६, ८: २६; ७, ६: १७;
 -ङ्गम् निम् ७, ५: ३७; ०: १३.
 वि-भ्र(अ>)डा- -टा वैथी २०,
 ३: १७.
 वि/भ्रम् > वि-भ्रम- -मेण वीथ १,
 ५, ८७.
 वि-भ्रान्त-> ष्वन्-मण्डल^० - न्ना:
 अष ५२, १-२, ४; ८, ४;
 १२-१३, ३.
 वि/भ्रान्, विभ्रान्ते अष २४, ५, ४.
 वि-भ्रान्- ष्विभ्रान् आथी^० ८, ६, ८;
 ९, ९, १४, काथी ११, १३, २८^०;
 आषथी ७, ४, ५^०; १६, ३०, १;
 माथी ७, ३, १२^०; माथी १, ७, ३,
 ३६^०; काथी १, ९, १, १७^०; वैथी
 १०, ४: १२^०; द्विथी ४, १, ६१^०;

११, ८, ४; वीथ ३, ८, ३^०; अष
 २, १०, १७०^०; वृदे ८, ७३^०;
 अम ३, १९३^०; काप १,
 ६९९^०; वृत् ७, २०^०; शैति ८०^०;
 २५५^०; २६४^०; वसिम् ६: १८^०.
 विभ्राद्-मादि- दि कप २, १,
 ११.
 ष्वि-भ्राजमान- ना: कापिष् २, ५,
 ३: १८; वीथ ३, ७, १५.
 वि-भ्रञ्ज^० - ष्विभ्रञ्ज आथी ८, ८, ६;
 काथी १०, ६, १८; अम २, ४,
 ३४; या २, १९^०; ११, १६;
 वृदे ३, ८३; अषा २, ९४^०.
 ष्विभ्रञ्ज (<ञ्ज)-सह^० - सह
 अषा ९, ३; ४४.
 वि-धी- ष्वि/भू द.
 वि-मत् - वि/मत् द.
 ष्वि-मति- पापया ५, १, १२३.
 ष्वैमत् - पा ५, १, १२३.
 विमति-ना- ष्वि-मत्, ष्वि-मत् - पा
 ५, १, १२३.
 ष्विमति^० - (> ष्वैमत् - पा) पाप
 ४, १, १५१.
 ष्वि-मति- वि/मत् द.
 ष्विमते वीथी १८, २४: १९.
 विमत्सह^० - सत्या: वीथी ४१: ९.
 वि/मथ, विमथीते वीथी १४, ३:
 २५; विमथीत् आथी १२, १,
 १७, कापथी ९, १८, १७^०; वीथी
 १४, ३: २१; माथी ७, १८, ६;
 वैथी २०, ७: ३; द्विथी १५, ८,
 १४.

a) वैप १ द.। b) पागे, वैप १ अ ९, ८९, १० टि. द.। c) सथ, मा २२, ३० का २४, १७, १।
 कथ ३५, १० क ४८, ८ व विमते इति, मे ३, १२, ११ विमते इति च पागे.। d) सथ, ते ७, १, १२, १ मे ३,
 १२, ४। कथ ४१, ३ व विमथ इति पागे.। e) सथ.। f) पागे, वैप १ परि. ष्विमथीति: ते ३, ५, १ टि. द.।
 g) समाहारे ह्य.। h) सोपार्थं वैप १, ६३० म द. (१ १८७५) अपि द.।। i) = एकाह-वितेप-।
 j) पागे, वैप १, २२८५ इ. द.। k) सहत् = ष्वि-वितेप-। l) = स्यत्.। = ष्वि-मथ- (क. वैप १)।
 m) पागे, वैप १ विमत्सह टि. द.। n) स्यत्.।

व्यमयिपत माश्री ३,५,१७
 वि मय-> विमयी ✓कृ>थी-
 कुवांण- -या वैश्री १७,१८ ३
 वि मयित- -तम् वीश्री १४, २९ :
 २३, १८, ३० : ५, -ते शाश्री
 १३,३,२
 वि-मयितृ- -तार शाश्री १३,३,४
 वि-मभान- -ना वीश्री १४, २१
 २२१
 वि-माय->थी✓कृ,विमाधीकुर्वते
 वीश्री ११,११ ५
 विमाधी कृय आश्री १८,
 ७,८, द्विथी १३,२,३३, ३७
 वि-मय^३- -द शक्र २, १०, २००,
 साज १, ३३४, ४२३, -दस्य
 शक्रा ८,४३१, -दे वृदे ३,१२८
 वैम(र>)श्री^० चा शक्रा १७,
 ४२
 वि मध्याह्न^०- -द्वार अप ६३,१,९
 वि✓मन्, विमा-गन्ते अप ६८, १,
 १९
 वि मत^०- -वानाम् आश्री २, ११,
 १०, ३,१३,८, ६ ६,११
 रवि मति^०- -ति अप ३६,८,१
 वि मनस्^०- पापया ५ १, १२३,
 -वृना आश्री ३,८,१, या १०,
 २६
 वैमनस्य- पा ५, १,१२३
 विमनस्य वा-^०मनस्य त्य-, भनि
 मद्- पा ५ १,१२३
 वि मल ला^०- ल वाश्री २,१, -लम्
 या १४,३०^०, -ला वीश्री २, १,

१११, -लानाम् अप ६८, २,
 १३, -लानि अप ५२, ११, १,
 ६३,५,३, -ले माश्री २,१४,३१,
 अप ६७, ६, ४, ७०^०, १९, १,
 विष १२,१०, १२.
 विमल नक्षत्र^०- -त्रम् अप ६८, २,
 २१
 विमल विपुल-विषय प्रसक्त हृष्ट-
 प्रदर्शन- -नेपु अप ६५,१,२
 विमले(ल ई)क्षण^०- णा अप ६८,
 १,२२
 वि मांस^०-विक्रयिन्^०- -यो विष
 ५४९
 वि✓मा विमिमोते आश्री १६, १७,
 २, ५ ८, वीश्री, ऋषिमिमे
 आपश्री ११,४,१४, माश्री १२
 ४,९, वैश्री, ऋषिमिमोत्व वैताश्री
 १५ ६, २८, २३, वीश्री १३७,
 १०, वि मिमोत्वम् वीश्री
 ११,७ ३६१, व्यमिमोत्व वा ८,
 २११, विमिमोत्व वीश्री २६,
 १० ४,२३ ६, या १,८^१
 ऋषि मा^०-मा वीश्री ९, ७ २०,
 २०,४७ ८, १९, ४ २०
 वि मान^०- पाग २,४,३१^०, -न
 काश्री १८,३, २०, वापश्री ११,
 ४,१४, १७,१४,१०^०, २३, २०,
 ७^०, वीश्री २०, ५१ २६ २९
 ६ ९, माश्री, शुक्र २,३००^०,
 -नम् वापश्री ४, ११३ ४६,
 अप^० ९ ४, ४, ६८, २, ९,
 -वाश्री सु १२, १, २९, २,

-नानि अप ६८, १, ३१^०,
 वृदे १, १२१^०, आ ७१, १५,
 ३ -ो माश्री १,६, ४, २११^०,
 आश्री २, ४, १०० १३^०, सु
 ११,१, या १०, ३९, -नेन अप
 ३०,४,५
 विमानो(न व)वित्त-नम् वीश्री
 १४०,९^०
 वि माय आपश्री ७, १, १२, वीश्री
 १७ २८ ५४४, वीश्री
 रवि मित,दा- -त अप ४७,१,३,
 -तायाम् आश्री ४,७, ६, १५,
 द्वि २,६, ४१
 विमातृ- (>वैमात्रेय- पा) वा
 ४,११२३
 वि मार्ग-ग^०- -ना वैष १, १०,
 २, ९
 वि मार्जन- वि✓मृद् द
 वि✓मि, विमित्वन्ति शाश्री १६,
 १८, १३, १७, ५, ५
 आपश्री १८, १८, ५,
 द्विथी ७ १,२४, ७,१, १३ ६,
 १७, १७, ३, ३०, ऋषिमिमे
 कोश ३,२,२, शाश्री २,५
 विमित्ताम् वीश्री १३, २७ : ८^०
 रवि मित,ता^०- -त वीश्री १७
 ०८ १०,१६, १९, २५ ११
 ५, -तम् काश्री^० ७, १, १४,
 १५ ७, १४, आपश्री, वाश्री ८,
 ४, १४^०, वीश्री ८, २५^०, -ता
 वीश्री ४, १ ३३, १०, ९ ४,
 १७, ११ ५, ३२ ९, वैश्री

a) = ऋषि विशेष । b) वैष १६ । c) वृ २१७० १६ । d) = शब्द- (या १०,२०,१) ।
 e) = मध्याह्नोत्तर-वाक्य- । f) = शत्रु । g) माप । h) वस । i) विमल शरीरम् इत्यस्य स्थाने विमल
 शरीरेण इति RN । j) = विप्रतिपिद्ध-मांस । k) प्राप्त > उक्त । l) = ज्योत्स्नान- । परल प्र (वैश्रु क्वा
 [पक्षे] वस या <वि✓मन् इति वा) । m) भाग वैष १ १८६० ३६ । n) पागे वैष १,१६१५ १६ ।
 o) = स्तम्भवाक्यदान (सोला इति नमा) । p) सप्त अप १९,१, ८ । q) = स्तम्भानन्द समुत्थितम् इति पागे ।
 r) विष (शून्य, वेदि- प्रश्न), नाप । s) = मध्यम विशेष- । t) = उक्त-

११, २: ५, आप्रिष्ट २, ४, १
 २०^१, माष्ट २, ३: १४^१,
 हिष्ट १, २७, ८^१, -गात्
 वेताथी २, १५, -गान्याम् वीथी
 ११, १० ३, -ते वाधुथी ३,
 ६६: २९, वीसू २४, ३, ३२
 १४, ८४, ६, -तेन वीथी १८,
 १८: ३, -नेषु वीसू ३४, ३

विमित मध्य-^१ अथे वीसू ८४, ९

वि√मिष् > वि मिष् - > ^१अन्वा-
 (द<)>वा^१ - वा ठनिस् १ ४७

विमुक्त^१ - > ^१का (क अ) रिष्टरु-
 (क-आ)कार^१ - रा अष ६३,
 ४, ८

विमुखा(वत्रा)^१ - स्व. माष्ट २, १४,
 २९^१, -अम् अष ३६, ३०, २^१,
 -सात्^१ काथी २०, ८, ५, -ले
 हिथी १२, ८, ७, आपण्ड १२, ७,
 रिण्ड ४, २९, -खेत्^१ काथी १८,
 ४, २४, पाष्ट २, १५ ६

विमुखा(ल आरवा)>^१त्प^१ - स्व
 सुअ ४, ११७

वि√मुच्, ङच्, विमुञ्चते भावथी
 ३, १०, ६, ८, ८, १४, वाथी २
 १, ४, १९, विमुञ्चति भावथी
 ३, १३, ५, ४, १६, १०२, ४,
 काठथी, विमुञ्चत वीथी २०,
 ११: १४, विमुञ्चन्ति वाथी
 १७ १५, ८, हिथी १६, ६, ३८,
^१विमुञ्चामि माथी १, ३, ४,
 १८, ४, ३, २०, वाधुथी ३, ५५
 ३, वेताथी २४, ७६, वीसू ६,
 ११, अष २ ७०, ^१वि
 मुञ्चामि आपथी ४, २, ९ २०,

१६, १८, वीथी, वि (मुञ्चामि)
 वीथी ३, १९ ११, माथी ४,
 १८, ५, माथी, ^१विमुञ्चत
 आपथी ३, १३, ५, ४, १६,
 १०, १३, १३, १२, वीथी,
^१विमुञ्चन्नाम् काथी २, ८, १६^१,
 वीथी ३, २९ ४, अष ३७,
 ९, ३, ^१विमुञ्च, > ज्ञा माथी
 ५, १८, ५, वाथी १, १५, १७,
 ८, ३, १०, वाथी २, २, २१,
 आपथी, अषा ८, ४, २९, सुषा
 ४, ३१, ^१वि मुञ्चत > ता^१
 आपथी ६, २२, ३, अषा ७, १६,
 विमुञ्चत शष ४४४, विमुञ्चेत्
 वीथी २०, १२ १५, २२, ११ -
 २१, २२, २३, माथी ३, ७, ६,
 विष ५ ७१, विमुञ्चेषु वाथी
 ६ १ ४, वाथी २, ११, १
 विमुञ्चते वाथी १५, २२, १^३,
 विमुञ्चत वाष १७, ३५^१, वि
 (अमुञ्च) वाथी ११, १३, २८^१
 विमुञ्चते निष् १ ७ ३५^१,
 आप्रिष्ट २, ४, ५ २४, अष १,
 ४९, ६, वीष ४, ७, ८, विष ५५,
 १३, वा ९, ८, विमुञ्चन्ताम्
 वाथी २१, ४, ४^१, ^१विमुञ्चेषाम्
 वैथी १६, १५ १०, हिथी ९,
 ३, ५९, ^१विमुञ्चषाम् काथी
 १७, ३, १९, जाथी १६ १९, ८,
 वीथी ११ ९ ९, माथी
 विमोचयति वीसू ४२, ३, ७७ १५

वि मुक्त का- वाष ५ २, ६१,
 -क आपथी १०, २९, १०,
 वीथी १, १५ ३१x, माथी

१० २०, १७, वीष २, ९,
 ४, -कम् काथी २०, ५ १५,
 -कयो वैथी ३ ८, वैथीका
 ४४, -काम्याम् हिथी २, ५,
 ६, -कासु वाथी ४, ७, १८,
 वाथी १२, ४, ३, वाथी ४, १२,
 ३, -के माथी १, ३, ४, २९,
 वाथी १, ३, ६, २४, वाथी १, २,
 २९, १४, १, १६, वाथी

विमुक्त- पा ५, २, ६१

विमुक्त दन्त^१ - ग्ना अष
 ७०^१, ११, ३१

विमुक्त वाष्^१ - वादि वा ११,
 ४८

विमुक्त-द्वस्त^१ - स्ता अष ७०^१,
 ११ ३१

विमुक्तो(ल-उ)रपात-व्रीष-
 ष अष ६७, १, ८, २, ५, ७, ५

वि-मुत्त्व वाथी १, १५, ९, काथी
 ४, ४, १०x, आपथी

वि-मुत्त्वमान, गा- नम् वेताथी
 ३७, २३, -ना. वेताथी ४, १३,

-नाम् वीथी ३, १९ १०, ११,
 ९ ६, -नाम् वेताथी ४, ११,
 -नेषु आपथी ४, ११, ९

वि-मोक्त^१ - व वाधुथी ४, ८५:
 १४, १५, अष १६, ३^१, मीष्ट

११, ३, १६^१, -कम् काथी १८,
 ६ १७, -कत् वीथी २५ ८

११, माथी ९ १६, ८, -के वीथी
 २०, १२. १३, १४: २५, २२,
 ११ २१

वि-मो(कृ->)व्री- व्री आपथी
 १३, २१, १^१.

a) पामे वैष १, १८१० । द । b) वत् । c) = पट विषेव । d) द्य > धन ।
 e) = देवता विषेव- । f) वा किति । g) = मन्व विषेव (मा ३९ ७) । h) पामे वैष १ विमुञ्चाम्
 वे १, १, ७, २ टि द । i) पामे वैष १ वि मुञ्चते वे ४, ७, १५, ६ टि द । j) = नि-वासा- । वत् (वे
 इ २६ 'आशिन्- [विष] > वति इति) । k) माष, वाष । l) = होम विषेव (द मन्वेर्विमोक्त-) ।

वि-भोक्ष-क्षः बौध ४, ८, १०;
 -क्षाद् द्विप्रौ १, ७, २२.
 वि-मोचन^०- -न्म् बाधौ १२, ३,
 १४^०; १३, ३, १८; १८, ६, १६;
 आपधौ १०, ४, १२; २२, ७,
 १७^०; बौधौ १६, ५: ५^०;
 भाधौ; बाधौ ३, २, २, २८^०;
 वैधौ ७, १३: २^०; द्विप्रौ १६,
 ३, ३६^०; -न्त् बाधौ २, ५, ४,
 १; द्राधौ १२, २, ३, १; लाधौ ४,
 ११, १; -ने या १, १७.
 विमोचनी- -नी: आपधौ
 १३, २१, ३^०.
 विमोचन-मन्त्र- -न्त्र: बौधौ
 २०, ८: २६.
 विमोचनीय^०- -रस्य काण
 ७३, ९; -याद् ऋण ३७, १६, १.
 वि/सृज्, वि/सृष्टे काधौ ३, ८, ९;
 आपधौ; विमार्जित काधौ ८, ४, ६;
 काधौ १५, ५, १८; १६, २, २६.
 वैताधौ; वि/सृजते बाधौ १, १, ४,
 २०; वि/सृजते द्राधौ ६, २, ११^०;
 श्राण १, १६, ५; विमार्जित लाधौ
 २, १०, ११^०.
 वि/सृजते द्विप्रौ ११: ११; वि/सृ-
 जत् वैधु १, ४: २७^०.
 वि...मार्जित क श्राण २, २६^०.
 वि-मार्जित- -नाद् बौधौ १८, १
 १७; ३: १३; ४: १२ x x.
 ऋवि-सृज्(र >) ऋ- री अर्धं ३:
 ५४; -रीम् कौण्ड ४, ८; कौण्ड.

वि-सृज्य आधौ ६, १२, ७, शशी.
 वि/सृज्, वि/सृज्नाति आपधौ १०,
 १९, १०.
 वि/सृजित-> ऋ-मीद्वि- -द्वे: विध
 ११, १०.
 वि-सृजन्- -द्वन् बाधौ १०, १२,
 १८; द्विप्रौ १०, ३, १६.
 वि/सृज् > वि-सृज्^०- -सृज्:
 वैताधौ १४, १^०; -सृजे शशी
 ३, १, १; काधौ ४, ५, २३.
 वैसृज- -घ: बौधौ १७, ४७:
 ०; वैधौ ४, ५: १३; -घम् बौधौ
 २३, १७: २३; २७, १४: २;
 वैधौ ४, ५: १५; भाधि ४२^०;
 -घस्य शशी ३, १, ७; आपधौ
 ३, १५, ७; ४, १०, १^०; बौधौ
 २३, १६: २४, २७, १४:
 २^०; भाधौ ४, १४, ११^०;
 भाधौ १, ४, २, ६^०; बाधौ १,
 १, ३, ६^०; वैधौ ६, ९: १०^०;
 ११; द्विप्रौ २, ६, ३६; ६, ४,
 ४०^०; -घाय आपधौ ३, १५,
 १; १६, १; बौधौ; -घे बौधौ
 २६, ८: ४^०.
 वैसृजी- -धीभ्याम् आपधौ
 २०, २०, ७; द्विप्रौ १४, ४, ४४,
 -घ्यौ आधौ २, १०, १३^०.
 वि-सृज- -घ: आपधौ ३, १२, १^०.
 वि/सृज्, वि/सृज्नाति अम १३, १^०.
 वि-सृज्य बाधौ २, १, ४, १७.
 वि/सृजे, ऋवि-सृज्नाते^० आपधौ १, १, ६;

बौध १, ६, २६; ४, १, ११.
 वि-मात्त- -व्या: वाच २, ३७^०.
 वि मेघ- -व्ये विध ९९, ९.
 वि-भोक्ष- -न्तौ- प्रथ वि/सुच् द.
 ऋवि/सृच्छ, यम्, वि(वच्छन्ति)
 आपधौ ६, १७, १०^०.
 वि/सृच्छ् आधौ १०, ३१, ६;
 भाधौ १०, २२, ४; द्विप्रौ ७, ३,
 ५६.
 वि-न्त- -न्म् आधौ ५, २०, ६,
 शशी ७, १९, २३; ८, ७, १५;
 भाधौ २, ५, २, २३.
 वि-न्त- -वि-न्त- पा ३, ३, ६३.
 वि/यत्, > याति, विधातव^०.
 विधातव^०- वा ३, १०.
 वि-न्त- -त्त: द्विप्रौ २१, १, १^०.
 रवि/यत्- -पाठो २, १, २६०; -र्षत्
 अण ४८, १८; विध १, ३, वा
 १४, ११.
 विधात्- -न्ते अण ७७, १, ५.
 रवि-यत्- -वो(वि/र) द.
 वि-यद्यन्- वि/यु द.
 वि/या, विधान्ति बौधौ ५, १६: १;
 व्ययु: या ५, ५^०; विधातव
 भाधौ ३, ४, ९.
 वि-यात्- -यात्तु भाधौ ५, १, ५
 ६
 वि-यात्- -यात् पा ५, १, १२३, ४, २६^०;
 ३८^०; -तेषु भाधौ ५, १, ५, ६.
 वैयात्- पा ५, ४, २८.
 वैयात्- पा ५, १, १२३;

a) उप. नागार्थे प्र. 1 b) वा. प्राण्ये इति: 1 c) = वङ्ग-विशेष-1 d) प्रयोगार्थे >
 इयः प्र. उरसे (पा ५, १, १११)। e) परस्परं पाठे. 1 f) वैष १ द्र. 1 g) वस. 1 h) नाप. (इन्द्र. शत्रु)।
 i) पाठे, वैष १ वि/सृज्य काठ ५, १ टि. द्र. 1 j) = श्राज्. 1 k) = इष्टि-विशेष-1 l) पाठे, वैष १ वि/सृजित
 खी १४, १, ४६ टि. द्र. 1 m) सत्र. मन्त्ररी (बौध ७, १६) निमात्रव्या इति 1 n) पाठे, वैष १, २, १६४ d द्र. 1
 o) तु. या. एव. प्रथ; वैदु. रक. दु. दे. (तु. टि. ? विधातः) 1 p) पाठे, वैष १ द्विप्रुत्तः वै १९, ४६, ४ टि. द्र. 1
 q) = अन्तर्दिश-1 व्यु. ? <वि/यम् (तु. अभा.) इति वा <वि/यत् इति वा दे. 1 r) तन्मन्त्रिणं प्र. 1
 s) पृ २२२६ h द्र. 1 t) तु. पापग. 1

-ये वा ७,२,१९
 विद्यात-क- पा ५,४,२९
 विद्यात-ता-^१पा-व-^२, 'तिमन्-
 वा ५,१,१२३.

वि०विद्यात^३ निघ २,१९, या ३,१००^४.

विद्याल- पाठमो २,३,१०१

वि०यु विवोति वीथी १, १९ २५,

विद्युथात् भाथी ३,६,७, विद्युवा

या ७,३^५

विमोष्टम् आपम १, ८, ८^{५०},

विधियोगम्^६ आपमो १०, २३,

५, वीथी ६, १३ : १४, भाथी

२०, १५ १४, वैथी, विद्योम^७

आथी ८, १४, १८, दाथी १३ ३,

१०, लाथी ५, ३, २, साथ २५ ४२,

माथ १, ११, १८, जैथ १ १९ ३०

विन्वयन- नाथ वा ४ २५

विन्वित्तुव, वा- ता आथी ४, १३, ७,

-ते निघ ४, १, या ४, ३५^८

वि०युद्ध, विद्युज्यते विघ २२, ८६,

विद्युज्येत माथि २, ५८

विन्दुक्त, का- क्त माथी १, ३, १,

२६, -ता क्त १, ८, १७

विन्वोग- नाथ वा ३, १५, -नो

वैथ ३ ६ ६

विधोगा(प अ)थं- थम् पुदे

७, १४९

विधोग्य^९- ज्यम् काथ ४४ १०

विधूम^{१०}- य् वीथी ४, ८ २९

विधूम- नाथि द्विधि ६ ९

विधोयान^{११}-> विधु- गोवि आ

७०^{१२}, १५, ५

विन्वोनि- निम् शैशि १६८, माथि
 ३, ३, याथि १, ४१, -निपु आप
 ७०^{१३}, ११, ४

वि०रज, रज्जु, विरज्यते विघ २३, ६

वि रक्त^{१४}- तम् नाथि १, ६, २०

विरद्ध-> वैरद्विक- वा) पाप ५,

१, ६४^{१५}.

वि राग- पाप ५, १, ६४, -ग

क्रपा १४, १६, -गारय वृदे ७,

१३२

विरागि, विरागदेत् विघ ७१,

५७

वि रज, जा^{१६}- ज कैथ २ ८. २१,

-ज्जा क्थिथ ३, ४, ४ ९,

वैथि ३, ४, १८, १५, -जे

माथ १, २, २^{१७}

वि-रजस्^{१८}- जसम् वीथी १, १४ ८,

-जा वीथ ३, ८, १६^{१९}, ४, ३, ७

विरद्विच- पाठमो २, १, १६०

विरित^{२०}-> वैरथ-

वि०रद्, विरद्व-> दा वा ६, २०^{२१}^{२२}.

वि०रज्जु, विरज्यते शाथी १२,

२०, २^{२३}.

वि ररथी क्रपा ९, ४४^{२४}

विरथ-> विरथी^{२५}- थ्यो

क्रपा १४, ४७^{२६}

वि०विरथान्- ०थित् वीथी

१, ११ ३५, -विथाने माथि १२,

१, -थी आथी ५, २०, ६, माथी

२, ५, २, २६, अथ ४८ ६८^{२७},

निघ ३, ३^{२८}, या ६ २३

वि०रम्, विरमते माथि १, ४, ६,

वि रमते वाथुथी ३, १९ १३,

विरमति शाथी ५ १९, १६,

आपथी, विरमति वैथी १२, ५

५, हिथी ७, १, २२, विरमतात्

वाथुथी ३, १९ १३^{२९}, विरमेत्

आपथी २, ९, ८, ३, १४, १३,

१७, १०, १५ २, १३, भाथी,

विरमेथु काथी २२, ४, २९

विरमेत् वीथी २४, ७ ८

विरमेत् अप्राथ ४, ४,

२वि रत ता- तम् द्विथी १०,

८, ७, -ता वाथुथी ३, १९

११, नाथि^{३०} १, ७, १३, १४,

-ता निम् २, १ ३, ३५,

शैथ ३, ९, ५६^{३१}, सांथ ४, ८,

१६^{३२}, पाथ ७, १३, ३^{३३}, -ते

वीथ १४१, १८, आपथ १,

११, २३, द्विथ १, ३, ८३,

नाथि २, ३, १३, ५, ७^{३४}

विन्विति- वि विघ ९९, ४, -नो

अप ४०, ६, १४^{३५}.

विरमण- णम् अप १ ७

विरमण^{३६}- णम् द्विथ १, ७, ८, -जे

आपथ १, १०, २, द्विथ १, ३, ३१.

विन्वय माथी ५, २, ८, ४४, वैथी

विरथ- म वीथ ३, ९, ५२,

सांथ ४, ८, १७, शैथ २, ३८,

माथि १३, ४, पा १, ४, ११०,

पाता ३, २, १२३, -मात् संथि

२१७, -मे ह्रम ४, १२७,

क्रा २, ४, ६, ६, ४, शैथ,
 -मेथु द्विथी ८, ८, २५

a) सूत्रनिगमरसाद् निर्देशः । वपार्ये क्लि, [उ ५२२३८०, वेदु र्क डु दे (नाग वि दत्त-> [प्रा]७
 शत वा वि पाठय-> [स १]-०य इति वा, विन्वित्-> [स १]-०त इति वा)] । b) राग क्र १०, ८५, ४२ प्रमु विमोष्टम्
 इति धामे । c) धामे वैथ १ ते १, २, ५, २ डि द । d) धामे वैथ २, ३ रा वयोम शांथा ७, १ डि द । e) एपरि बुरवा-
 इति धामे । f) मथ । g) प्राप । h) = गोति-योग- । i) पाप < विन्वित्-इति । j) उप
 ५माथ डम (पा ७, ३, ६८) । f) मथ । g) प्राप । h) = गोति-योग- । i) पाप < विन्वित्-इति । j) उप
 = रज्जु । k) राग शैमा १०, २६, १ इति धामे । l) ५ १०७८ d द । m) पाठ १ विरपान्ते इति धामे (पु
 वैथ १) । n) वैथ १ द । o) = महत्- । p) *वा, वा> विरगपाम् इति लाली । q) *तम् इति लाल । r) शायं प्र ।

विराम-ञ्ज- -ञ्जः भाषि ३, ७.
विराम-वचन- -नम् पाठा १,
४, ११०^१.

विरल, ला^१- पाठमो २, ३, १९;
-लाः भाषि ७; नाशि १,
६, ९.

वि-रच- वि ✓द द.
वि-रक्षि^१- -रमया अप ५२, १३,
५; -रसो वापुश्री २, १० :
९, १२.

वि-रस्त^१- -सम् याशि १, २९; नाशि
१, ३, १२; -सस्य आपथ १,
१८, ४; हिष १, ५, ७४.

वि ✓रहः विरहेण कौष्ट ३, ११, ५५^१.
विरहेयत् शण्ड ४, ११, २३^१.

वि-रहित- -ताः हिश्री १७, २, १७.

वि-रह- (> वीरह- पा.) पाग ४, २,
८०.^१

वि-राम- वि ✓रञ्ज, न्द्र द.
रवि-राम^१- -नाणि अप ४०, १, १४.

विराम-वासस्- -समाम् अप ६८,
३, ४७.

रविराम-वासस्^१- -ससतः सुषप
८४ : ५.

वि ✓राज्, विराजते विध २१, ११;
वि-राजति आश्री ८, १०, ३;
शाश्री ३, ५, ८; आपथो; वा
११, २७^१; वि-राजति आश्रिण
३, ८, ३ : १२; वीशि १, १५ :
८४; विराजासि आपथं १, ११,
६१; वि-राज आश्री १, ६, १.

२१^१; आपथं १, ४, ९; २, ९,
१३^१; आश्रिण १, ५, २, ५५; भाप.
विराज अप १२^१, ५, ९; विरे-
जतुः विप १, २४; वि-राज्यासम्
आपथी ६, २३, १; भाप २,
२० : १५.

वि-राज(वप्रा.)^१- -राजः आश्री ७,
११, ३४^१; ८, ४, ४^१; शाश्री ४,
२१, ३^१; १४, २५, ४; काश्री
१७, ७, १५^१; ११, ५^१; आपथी
४, ४, ४; १७, ३, ४^१; वीश्री १०,
४५ : ५^१xx; भाश्री; शाश्री १,
६, २, १७^१; ६, ३, २, ३^१; वापुश्री
३, १३ : १; वैश्री १२, ४ : १२^१;
हिश्री १२, १, ३१^१; सुसू १, ६ :
१६^१; निस् १, ४ : २५, २६; भाप
१, २४, २२^१; कौष्ट ३, ४, ६^१; १^१;
शण्ड ३, ७, ५^१; पाठ १, ३,
१२^१; वीश १, २, २८^१;
वि-राज, २, ४२^१; ३^१; भाप १, ९,
७^१; वापु ११, ५^१; हिप १,
१३, १^१; मम १, १२, ८; २, ६,
४४; ७, १xx; उजिस् ८ : १२;
२४; मम १७, ३; ५०; पि ३, ५
-राजम् आश्री ४, १३, २^१;
शाश्री १४, २५, १^१xx; वीश्री
१०, ३२ : २^१; ७^१; १२, १०,
१; १४, १९ : ११xx; वापुश्री;
-राजा आश्री ५, १३, ६;
शाश्री ७, १६, ८; २, २०, २३;
१४, २७, ८; आपथी ६, १३, ९;

२१, ७, ७^१; २२, १०, २१^१;
वीश्री; हिश्री १६, ३, २७^१; १७,
५, १^१; -राजम् आश्री ७,
११, २९^१; काश्री ५ : १०^१;
वीश्री; -राजि आश्री ११, ४,
८; आपथी २३, ६, ११; वीश्री;
-राजेवापु १३, १^१; -राश्री आश्री
२, १, ३०; ३३; ९, १२xx; शाश्री;
-राट्, ह्, स् शाश्री ७, २७, ५;
६; ८, १७, ३^१; १४, २५,
४xx; शाश्री १७, ४, २२^१;
२२, १०, १०^१; २४, ४, ४^१;
आपथी; पाठ ३, १३, ४^१;
अप ४८, १०२^१; १३; आप
२, ३, ११^१; मम १, ६, ७; ६;
३; सुल ४, ६४; ५, २६; ५३;
मम १, १०३; १४^१; १८; २८;
३०; ३१xx; वा ७, १३^१; मम
१६, २१; ४३; ५५^१; उजिस् १;
३७; ४०; २ : ५; १०; -राट्
कौशिक ७; शाश्री १२, ३, १७;
शाश्री ४, १०, १८; १०, ९, ५
-रादिमः शाश्री ६, २, ३, ३^१.
विराज- -ञः शाश्री १०, ५
१२; १५; १२, १३, २^१; शाश्री,
मम २, १०, १६^१; मम २,
२४^१; आश्री १, ८^१; -नम्
आश्री २, १४, १६; ७, ११,
२७; ८, ७, ३^१; शाश्री; सुसू २,
१४ : ३; निस् ३, १२ : ११;
मम १७, १५; -नम् शाश्री

a) वैप ३, ७७४ ० द.। b) वस.। c) विप., नाप. (गीतिका- [नाशि. नाशि.])। d) पररत पाठे। e) विराजे इति पाठः इति. शोधः (द्र. चौ ११, १, २२)। f) सप. विराज <> विराजः इति पाठे। g) विप., नाप.। वैप १ द.। विशेषः टि. द.। h) = [विराट्छन्दोयुक्तान्] मम्-। i) = इष्टान्-विशेष-। j) शासः इति पाठः इति. शोधः (द्र. संस्कृतः टि., B.O. च)। k) = एकाह-विशेष-। l) = [उपचारः] देवी-विशेष-। m) अश्री शाश्री. पाठः। n) अश्री इति पाठः इति. शोधः (द्र. B.O. प्रमु.)। o) = वाक्-। p) = विराट्-मन्त्रिण-। छन्दस्-। q) वैप १ द.। विशेषः टि. द.। r) वैरूपः इति O. १। s) = नापि-विशेष-। t) पाठः ? विराजः इति शोधः। u) = मूर्धन्-विशेष-। v) = साम-विशेष-।

१०, ५, ९; ११, १५, ६; दाश्री
 ९, १, ५^०; लाश्री ३, ५, ५^०; ७,
 ७, २७; छम् ३, ६: ६^०; निम्
 १, १२: १६; -जाय् दाश्री १६,
 २३, १९; निम् ६, ९: ७;
 -जानाम् वीथी २२, ८: १७;
 चाय १७: ५; -जानि निम्
 ६, ७: ५२; श्रपा १७, २०;
 -जाभ्याम् दाश्री ९, २७, १^०;
 -ज्जाय वीथी १३, २९: ५^०;
 १६; माश्री ५, २, ३, ४; १५४;
 द्विथी २२, ४, १७; -जे चाश्री
 ४, १२, २^०; दाश्री ९, ३, १;
 लाश्री ३, ६, २०; निम् ३,
 १२: ४७; -जेन चाश्री ९, ११,
 ५^०; थापश्री १३, १८, १^०;
 छम् ३, ६: ३; थाज्यो २, ६^०;
 -वी आश्री ४, १२, १; निम् ९,
 ११: ३७; श्रम १, ९, ४, ५; छम्.
 वैराजी^० - जी वीथी
 १५, २८: १८^०; -जी: वीथी
 २२, ३: ५; ६; द्विथी १२, १,
 १४; -जीपु वीथी २२, ३: ४.
 वैराज-गर्भ^० - गर्भ-दाश्री
 १५, ७, २; निम् ८, २: २९.
 वैराज-जाय- - जै: श्रपा
 १६, ६६.
 वैराज-त(न् >) - त्ता^० -
 -त्ता चाश्री २, १, ३४; १२,
 ६, २९; -त्ता: चाश्री २, ११,
 ५; १०, ६, ७.
 वैराज-शैष्टुम-जायत-
 -जा: श्रम १, ३, १०; छम् ५,

११.
 वैराज-नामन्^० - नन:
 श्रम ३, २६.
 वैराज-न्युञ्ज- - न्यम्
 दाश्री १२, १३, ४; २६, ११.
 वैराज-पञ्चम^० - मी:
 दाश्री १०, ४, १०; लाश्री ३,
 १२, १०.
 वैराज-पृष्ठ^० - पृ: वाथी
 ३, २, १, ४८; लाश्री १०, १३,
 १०; -पृम् वाथी १०, ५, १;
 -पृष्ठाथी १६, २३, २०; वैराथी
 ३३, ९.
 वैराज-ज्व मीम् ३, ८,
 ४४.
 वैराज-शाबर-प्रस्ताव-
 -वा: दाश्री १२, २, ९; लाश्री
 ४, १०, १६.
 वैराज-सामन्^० - मा
 वीथी १६, ३: २५; द्विथी १६,
 ३, २०; -मानम् चापश्री २१,
 ७, १; वीथी १६, ३४: ११.
 वैराज्य- - ज्वम् वाथी १४,
 ३०, १^०; -ज्ज्वाय दाश्री १०,
 ४, ९; लाश्री ३, १२, ८.
 विराट्-का (म >) मा^० - मा
 निम् १, ५: २४; श्रपा १७,
 २०.
 विराट्-कामा(म-अ)पन्-
 -नम् निम् १०, ११: १०.
 विराट्-जन्^० - मी: चापश्री ५,
 १८, २^०; ६, २४, ५; २६, ५;
 वैथी १, १४: १७; २, १० ११.

† विराट्-ज्ज्दस्^० - दस:
 चापश्री १८, ७, ६^०; वैथी १७,
 १८: १; द्विथी १३, २, ३२.
 विराट्-त्रिष्टुम् - त्रिष्टुमी श्रम
 २, १०, २०.
 विराट्-पू (वी >) वा^० - वा
 श्रम १, ९, ११; छम् ५, ७०;
 श्रपा १६, ६८.
 विराट्-पूर्वा(वी-अ)त्^० - अत्
 श्रम २, ५, ८६.
 विराट्-प्रथम^० - म: निम् ४,
 १०: ७.
 विराट्-संपद् - पद्म् निम् १०,
 ५: १४; १७.
 विराट्-संपन्न, चा- - न्न: छम् ३,
 २: १; ४; २६; -चा^० वीथी
 २०, २५: ३१; वीथु ३: २५.
 विराट्-स्थान, वा^० - नम् श्रम
 २, २, ११; -ना श्रम १, ९, ५;
 २, १, ८९; छम् ३, ५१; ५, ६४;
 श्रपा १६, ६७; -ना: श्रम १,
 ३, ९; छम् ५, ९.
 विराट्-स्वराज्^० - राजी श्रम
 १, ३, ५; छम् ५, ५; पि ३, ६०.
 विराट्-स्वराज्^० - जम् वाथी
 १४, ३०, १.
 विराट्-अतिजगती^० - ती श्रम
 १२, १.
 विराट्-अनुष्टुप्-संपद् - पद्
 निम् ४, ८: १८.
 विराट्-अथ - अथ वीथु ३, ५,
 १^०.
 विराट्-महि^० - ही श्रम १२, १.

n) = राम-विशेष- । b) सुहृत्-विशेष- । c) विर. (दीक्षा-), नाप. (दक्ष-). । d) पभि. वैप १
 वैराजे पाठ ५०, १ डि. इ. । e) वत्त. । f) नाप. (दक्षि-). । g) 'नाज्जीम' इति पाठः । पभि. गोपः
 (छ. दाश्रीः) । h) = छन्दो-विशेष- । i) = मन्त्र-विशेष- (तैत्ति १, १०, १-५ [उ. सा.]) । पुर. = गो- ।
 j) मन्. विराट्-मै: <> विराज-मै: इति पभि. । k) वी इति छ. ? । l) विर. (उत्त-वेदि-). ।
 m) = एहाद-इय- । टनाहारे दस. समाराधनपु टच् प्र. (पा ५, ४, १०६) । n) पभि. इ ५८८ छ द. ।

विराट्-ना(भिं)र्मा- भौ अञ
 ३२, १०, २१, २८xx, -भौ
 अञ १, २५
 विराट्-नायत्री- ष्याः अञ ८,
 १०(x), ११, २१, १६, ५, -चौ
 अञ ८, १०, २०, २
 विराट्-जगती- ए अञ ११,
 १, -चौ अञ ४, १५, १५, ६
 विराट्-देवता- > ष्य- न्या.
 अञ ८, १०
 विराट् ह्(प)पा- -पा
 अञ १, १, ६, २, १, ८८, २,
 २०xx, अञ १, १४१xx, ५,
 ६५, अञ १६, ६९, -पा
 अञ १, २, ९, २, १०, १३२,
 अञ ५, ९, -पाम् अञ १,
 १३० -ये अञ २, १, १२२
 विराट्वा- -वायाम् अञ ५
 ४
 विराट् नाम-मायत्री- ष्य
 अञ ५, ६, -चौ अञ ६, १९
 † विराट्- -अम् वीथी १७, ४१.
 २०, आप्त २, ८, ८, आभिष्ट
 १, ३४. १३, वैष्ट २, १५ २,
 द्विष्ट १ ११, १, -जे वैताथी
 ४० २०
 विराट् कम- सा वाधूथी
 २७ ४, -मेवु वीथी २०,
 १७ २९, २३ १६ -मै
 वीथी २ १८ १४', २४ २३

१०, ११, भाथी ५, ११, ७xx,
 द्विष्ट ६, ५, १६, ७, २, ७
 † विराट्- -अम् आप्त २,
 १५, ५६, आभिष्ट २, ४, १ १८,
 काष्ट ११, ३, माष्ट २, ३ १२,
 द्विष्ट १, २, ७, ७
 विराट्- > † विराट्- -चौ
 आप्त १२, १३, ८, वीथी
 १२, ५ ८, द्विष्ट २३, २, ४१
 विराट्- नात् या ७, १३'
 विराट् माष्ट २, ११, १४†
 विराट्- -अम् विष्ट १, ४२
 विराट्- जानाम् अञ ५०, २, २
 विराट्- पाठमो २, २, १००, ११
 ४, २, ५३'
 वैराट्- पाठ, २, ५३
 विराट्-कामा- अष्ट वि०राट् द
 विराट्- -त्रे अञ ६४, ४, ३
 वि०राट्, † विराट् वीथी ६, ७
 २४, भाथी १०, १२, २
 विराट्- नात् या ७, १३'
 विराट्- (> वैराट्- पा)
 पा ५ १, १२४
 विराट्- वि०राट् द
 विराट्- वि०राट् द
 वि०राट्, विरिच्येत लाथी ८, १०,
 ९
 विरिच- क विष्ट ३०, २०,
 -कै मित् ६, १२ २५
 विरिचि- पाठमो २ १, १६०

वि०रिचि > विरिच- वा ७ २,
 १८
 वि०रिचि, विरिच्यति कौस ५९
 २८, ७२, ३०
 विरिचि कौस ११७, २१†
 च्योरिचि वैताथी १२ १८†
 विरिच- अम् वैताथी २४ १,
 अष्ट १, ५, ३, ८
 विरिचि संधान- नम् वैताथी
 ४३, ४५
 वि०रिचि, विरिचि आ ६४, १ ६
 विरिचि अञ ६४, ८, १
 विरिच- -वेण वा १०, ११†
 विरिच- -अम् अञ ७०, १२ ३
 विरिच- -नामि अञ ६४ ४, ३
 वि०रिचि, † विरिचि वीथी ७ १६
 ८, आभिष्ट २, १, ५ ११ वि
 (रोचते) याथि २, ५† विरिचि
 द्विष्ट १२, ७, १८, आप्त २५
 १५, द्विष्ट २ १९
 विरिचि- के वीथी १२ ९ २५†
 विरिचि- न† अञ ८ १०
 (x)†, -नम् माथि १, ४, १२
 वि०रिचि वि रज आप्त २०, २०,
 ७†, विरिचि वीथी २२ ३
 २२
 विरिचि, अष्ट आप्त ७ ११ ९
 विरिचि वीथी २५ १०, ४ आप्त १
 ३ १, ९, भाथी ३ २, ७ वैती
 † विक्रदादये आ ४७ १, ४

a) = विरिचि विष्ट १। बस। b) < विराट् वा (शौ ८, १०, १)। c) = विराट्-। उप कर्तरी
 अञ प्र (वैतु Old द्विष्ट), ० विष्ट। विराट्- इति, विराट् [तु] इति Bohl [ZDMG ५२, ८८] गोपथ।
 d) = एकाद-विशेष-। e) = विराट् कम। f) पाम् ७ २२ ४१। g) पामे वै १ विराट् टि द।
 h) = दस्ता-विशेष-। i) = वैस विशेष-। j) टु पाका। k) विराट्- इत्यम् (तु पाम्)। l) टु २५५।
 m) वैतु Web विरिचि। < वि०रिचि इति (तु सरम् टि)। n) पामे वै १ विरिचि मा ६
 ३१ टि द। o) वै १ द। p) पामे वै १ विरिचि मै ४ ९, १३ टि द। q) तथा आप्त १७ २४ ९
 अष्टुपाम् इति पामे। r) पामे वै १ मा १०, १६ टि द। s) उप कर्तरी भावे च ह्य। t) व्य।
 u) एता इति पाठ १ यति कोष (तु शौ ८, १३, ३)।

वे०रघू, विरोधेत् माथी ५, २, १४, २२.
 विरुधते हिथीरे ६, २, अथ ६८,
 २, ४१, विध २०, ३९, विरुध-
 न्ने अथ ५१, ३, ५, ६२, १, ८,
 २, ५
 विरोधेत् अथ १, १
 विरह- पाग ७, २, ८०^६, -द
 आपथ २, २३, १०, -दानाम्
 अथ ६४, ३, ३
 वैरुध- पा ७, २, ८०.
 विरुध पोनि-गम- -नम् अथ
 ६४ ३, २.
 विरुधा(द्व अर्थ)-वृ- -क्ता
 काय २७८ ८
 विरुहा जैथीप १ १८
 विरोध- -य अथ ३, ९, १७, अथ
 ६२ १, ४, पा २, ४, ९, मीत् १,
 २, ९, २, ५, ६, -अस्य मीत् १,
 ३, ८, -वात् माथी १, ८, ९,
 १५५, १५, २५, ११, ११, मीत्
 ९, २, ४८, -ये वाथी १, ५, ५,
 ५, ५, ७, १, २६, अथ
 विरोधन- मात्र या ६, १
 विरोधित्- -वि मीत् ३, ६, ९,
 -धिनाम् पात्र २ ४, १२, मीत्
 २, ४, ३२^७, ८, ४, २८, १०, ७,
 ५१, ६८^८
 विरोधित्- वा अथ ३, १३
 विरोधित्- -त्वात् मीत् १०,
 ७, १९
 विरोधित् (धि अ)प्रहण- -त्वात्
 मीत् १०, ७, ५४

वि०रघू(=रहू)> वी(=वि)
 रा.रा.रू^१- पाग ७, ३, ५३, -द्व
 आपथी ६, २०, १^०, -रुत् वीत्
 ७६, ८, ७२, १०, अथ १, ३४,
 अथ १. १९, २ १८, -रुत्स्य
 कीत् ७३, ५, -रुत् वीथी ७,
 ५ २३, १४, ४ ३८, माथी २, ३,
 ३, ७, आपथ, -रुत् आपथ १,
 १५, १^१, -रुत् वीथी १, १२
 २४^{१२}, २१ : २x, माथी १, ४,
 १, ५^{१३}, वाथी १, १, २, ५^{१४},
 वैताथी^{१५} ८, ७, १३
 वीरुत्-वनस्पति- -तीनाम् मीथ
 १२, २५
 वि०रहू, विरोहति वीथी १४, २८
 २, कीत् २२५, १, विरोहति
 वीथ १, ८, २१, विरोहत् आपथ
 ३ ८, ३ : ४^{१६}, वीथिरेत् आपथी
 १, ४, ८, ५ २, ४, ७, २, ८, वीथी,
 विरोहेत् आपथी २, १९, १५,
 वीथी १४ २८ ३, माथी ३, ६, १,
 वीथी, वीथि- ह्येत् आपथी १, ४,
 ९, ७, २, ९, वीथी १, २ १३,
 ७, १, २५ २०, १५ २३, माथी
 व्यरीक्षीत् भाट २, ३२ २, द्विष्ट
 १, १७, ५^१
 वीथिरेत् आपथी ७, ६, १,
 माथी ७, ८, १, द्विष्ट ६, २, ९,
 विरोहेत् अथ ६८, ३, ११.
 विरुदा(रहू)- ट आपथ २, २४,
 २, द्विष्ट २, ५, १६७, -दात्
 काथी १५, ९, २४, आपथ १४,
 ७, -दानि अथ ५, ६, -द

माथी १३, ४, १, वीथी २३, ८
 २६, २७
 विरुदा(रहू)विरुद- -दात्
 काथी १५, ९, २३
 विरोह- -दात् या ६, ३, -ये
 अथ ६५, १, ९, ७१ २, १
 विरोह- -हति वीत् ९३, ३०,
 -रुत् अथ ७२, ३, ९, -वृत्
 कीत् १२५, २, अथ २ ६
 रवि रूप-> वित्-> वित्-
 -त्वात् मीत् ७, २, १५
 रवि रूप पा^{१७}- -य माथी १२, १५,
 ११, अथ ७२, ६, १, ३^{१८}, अथ
 २ ८, ४३, ७५, अथ, या ३,
 १७^{१९}, -यत् मीत् ३, ११
 १६, -वृत् आपथी ६ ५, ७,
 ७, १५, ५ १७ १३, २^{२०}, २४,
 ८, ४^{२१}, माथी १, ८, ३, ३, द्विष्टी
 ४, ३, ६, १२, ४, ४^{२२}, आपथ २,
 ५, ३ २४, काय ३, ५, वीथ ३,
 ७, १८, -पाणात् पावा १, २,
 ६४, -वृत् वीत् २०१, २,
 अथ ३ १५^{२३}, -पास या ११,
 १७^{२४}, -वृत् माथी ४ १३, ७,
 वीथी १८, १२ ४, अथ ९, ४,
 ५६, वृत् ३, १२९, अथ ३,
 १६३, तैत्रा ४, ११
 वैरुत्- -य माथी १२, ११,
 १^{२५}, आपथी २४, ८, ५, ६,
 वीथी २४ ३, ५, वैष ४, ३, ८,
 -यत् माथी ७, १०, ८, ८, ७,
 १९, वीथी १८, १५ ८, माथी
 ५, २, १६, अथ, -यत् माथी

a) अर्थ १। b) प्वा इति जीव । c) तु जीव । d) वैप १ द्र । e) सवा. वी २, ७, १ वीत् इति पाठे ।
 f) =सपा अ १०, १४५ १। वी ३, १८, १, ५, ४, १ प्रम् तु वीत्पात् इति पाठे । g) पाठे वैप १ वीत्पात् तै १,
 ५ १०, ३ टि ६ । h) पाठे वैप १, १००० ३ द । i) पाठ १ अथरुत् इति शोध (वृ प्रती। [ZDMO ५२, ८५]) ।
 j) वीथी पाठ । k) विर, नाव (साम्), व्यप. (ऋषि [ऋष अथ अथ सात् प्रम्]। वम । l) =पत्ता मै २,
 ११, १२। घट ४०, १२ तु विरुत् इति पाठे । m) यत् <वैरुत्-। n) पाठे वैप १ मा ३०, २२ टि. द. ।

१०,४,९,१२,१,१०, अथ १५,
 २१, -मा आश्री ४, १२, १, अथ
 २, १०, ११०, वृदे ३७, -पाणि
 निष् ३, ११ २४, -पात् शाश्री
 १६, २३, २०, निष् ६, ९,
 ६, -मपाय वीश्री १३, २९
 ५, १४, माश्री ५, २, ३, ४, १३,
 द्विथी २२ ४, १७, अथ १५, २,
 -वे आश्री ४, १२, २०, लाश्री
 ७, ५, १५, निष् ३, ११ १,
 १६, २, ९ ८, -पेग द्राश्री २,
 १, ३, लाश्री ३, ५, ३, ७, ५, १२,
 छम् ३, ५ ४, -पेम्पः शाश्री
 २, २७, ५१०.
 वैरूप गर्भं- -भम् शाश्री
 १५, ७, ४, निष् ८, २ ३४.
 वैरूप-वृष्टं- -ष्ट वाश्री ३,
 २, १, ४६, लाश्री १०, १३, ९,
 -दम् शाश्री १०, ४, १, -ष्टे
 शाश्री १६, २३, १९
 वैरूप-पोति- न्या आश्री
 ८, ७, ४
 पवैरूप-वैराज- -जे द्राश्री
 १०, ४, ७, लाश्री ३, १२, ६०
 वैरूप-वैराज साकर वैरुत-
 वानाम् आश्री ७, ३, १२, -तानि
 आश्री ७, ५, ४
 वैरूप सामर्- -सा वीश्री
 १६, ३ २२, द्विथी १६ ३, १७,
 मीष् १०, ६, १५, -मानम्
 आपथी २१, ६, १६, वीश्री १६,
 ३४ ९
 वैरूपा(प आ)दि- दीनाम्

आश्री ८, ४, २५
 वैरूप- -प्यम् पावा १, २, ६४,
 मीष् ७, २, १९
 वैरूप विप्रद- -हो पावा १,
 २, ६४.
 विरूप-नेत्रं- -त्रम् अथ ३, २, ४
 विरूप वत् आश्री २४, ८, ५,
 २६, ८, ९, वीश्री २४ ५,
 वैष ४, ३, ८, वा ३, १७१
 विरूपा(प-म)क्ष- -पाग १, ११२,
 -मक्ष पाण्ड ३, ६, ३६, वीष् १,
 ३, ३६^{१०}, -क्ष वीष् २, ५, ११^{१०},
 वीष् ४, ५, ३, ४, माण्ड २, १४,
 २९^{१०}, जैष् १, २ १४^{१०}, अथ
 ४३, २, ६१^{१०}, छम् २, १५^{१०}, -क्षम्
 आश्री १, ५, २ ३६, २, ६,
 ८ ३७^{१०}, वीश्री १, ३, ३७^{१०},
 ३, ८, २६, जैष् १, २ ११^{१०}, अथ
 ११६ २०^{१०}, चाम १७: १३^{१०},
 -क्षा वीश्री ३ १०, -मक्षाम्
 आश्री १, ५, २ ३, जैष् १, २
 २२, -क्षेग जैष् १, ११ ५^{१०}
 वैरूपाक्ष- -पा १, ११२, -क्ष^२
 वाण्ड १, २०, गोष् ४, ५ ६, -क्षम्
 गोष् ४, ५, ८^१, द्राष् १, २, २२
 कम् १, १, ५
 विरूपा(प-आ)द्विरस- -स छम् १,
 १६९
 विरूपक- (> वैरूपक- पा) ५
 ४, २, १३३
 विरूपित्य- -विरूप- इ
 वि-रोक्त-, शोचन- वि/ल्व इ
 वि रोध-, -चन-, -धिन्- वि/ल्व इ

वि रो(मन्->)मा- -मे विष १ २६,
 वि-रोहण-, -ह्व- वि/ल्व इ
 विरोहित- -पाग ४, १, १०५, १
 १११, -ता^{१०} वीश्री ३ ५
 वैरोहित्य- -पा ४ १, १०५
 वैरोहित- -पा ४, २, १११
 वि/ल्व पाथा सुदा पर सवरणे सुए
 पर छेरे
 वि/ल्व, विलपति अथ ६८ ४, १
 वि-रूप- -मन् इदे ६, ३३
 वि लवित- -लम् वृदे १, ३६ वा
 ५, २
 वि लाप- -व वृदे १ ५३
 वि/ल्वम्-वि लाप- (> ल वा-
 लम् ल- -मिमन्-, वैलम्-
 पा) पाग ५, १, १३३^{१०}
 वि लामम् शाश्री १०, ८, ६
 वि/ल्वम्, विलम्बेन वीष् ९ २६
 वि लम्पित, वा- -लम् वैव ३ ७,
 ३, -ता माश्री १ २-४, वाशि
 १, ५०, -ताम् अथ १३ ४६,
 ४६, वाशि ३०, माश्री १, ५
 वाशि, -तामाम्^{१०} कृत २ ४ ३,
 माशि २, ५
 विलम्ब- (> वैलम्ब- > लम्-
 वा) पाग ४ १ १०५ २, १११
 वि-लम्ब-, वि-लयन- वि/ली इ
 वि/ल्वम् > वि लापिन्- पा ३ ९,
 १४४
 वि/ल्व > वि लास- स वीश्री
 २५ १६१ -से अथ ४८
 ४५
 वि लापिन्- पा ३ ९, १४३

a) सपा काठ २२, १४ वैरूपेग इति पाठे । b) विप (विश्वेव-) । तद्वि शक्ति । c) म ।
 d) पाठे वैप २, ३३ वैराजम् एवा ८, १७ इति द । e) नप । f) = शिरो रोग । g) = दृव शिरो ।
 h) सपा आश्री १, ५ २ ५ पतिवाध (स) इति पाठे (पृ १५१९ तस्य पतिवाध [विप] नष्टम्) । i) = [उपनाराध]
 मन्- । j) = यमगा विरोध । k) अण-वाच्यं अण् प्र । l) = [विह ११३ देवत्य-] मन्, होम- । m) कम् ।
 n) तु पागम् । o) वृ < वैरोहित- । p) तु पावा । विलम्ब- इति भाष्या प्रम् । q) = वृति विरोध ।

विलात,ता- (> व-त्वा-, व-त्वा-,
 षत्तित्-वैलारय- पा.) पाउमो
 २,२, १३७; पाग ४,१, ४; ५,
 १,१२३०.
 विलाप- वि/लप् द.
 विलाम- वि/लम् द.
 वि लास-, षत्तित्- वि/लप् द.
 वि/लिख्, विलिखेत् आशिष्ट २, ४,
 ११: ७.
 विलिखत्- खन् भातिष्ठ २, १,
 ३: १४; वैष्ट ३, १५: ४; द्विष्ट
 २,३,७; जैष्ट २,८: १६.
 विलिखित- ते द्राधौ २३, १,२;
 १४,३,११,साधौ५,१,२;७,१०
 विलेखन- नेन काध २७७: ५.
 विलेपय- ग्याति वीधौ २४,
 १०: १४१.
 विलिङ्ग- षे अण ७२,२,५.
 विलिङ्ग्ये तु १५,३;५.
 वि/लिप् > विलेपन- नम् अण
 २०,६,३; -ने अण ७०,५,२.
 विले(पक>)पिका- (>वैलेपिका-
 पा.) पाग ४,४,४८.
 वि/लिङ् > विलिष्ट- ष्टम् दाधौ
 ४,११,६; दाधौ २५,१४,३६;
 वीधौ १०,४: ४०; २७,२: २०.
 वि/ली, विलीयते आधौ १२, २३,
 ११.
 विलय- यम् अण ६३,२,६.
 विलयन- नम् गोष्ट ३, ६, ४०;
 दाष्ट ३,१,४५; आपण २, १८,
 ११; द्विष्ट २,५,५३६.
 विलय्य आपधौ २, ६, १; वीधौ
 २,८: २०; १३: ४; १८: २४;
 २१: ३४४; माधौ.

विलय्य माधौ १,२,३, २४; ५,४,
 १८; अणाय १,५; २,३.
 विलीन,वा- न्नायाम् अण ३१,१,
 ५; -ने वीधौ १८,३२: १२.
 विलीन-पात्र-पञ्जर- रा: अण
 ४०,६,१६.
 विलीन-पूत- नम् वीधौ २,२१;
 अण ३०,१,१५.
 विलीनो(न-उ)त्पूत- तम् काष्ट
 २५, ८; -तस्य वीधौ १०,
 ५०: ६.
 विलीयमा(न>)ना- ना अण
 ५८,४,८.
 वि/लुप्, म्, विलुम्पति कौत्
 ८५,२२; विलुम्पन्ति अण ५०,
 ५, ३; विलुम्पताम् वीधौ ८५,
 २२५.
 विलुप्यते निम् ५, १२: २०;
 अण १२,१, १३; ७१, १५, ५;
 विलुप्येत भाधौ २,१४,१; छम्
 ३, १४: ११.
 विलोपि आपधौ १,१२, १३;
 भाधौ १,१२,१०; वीधौ ३, ७:
 ७, द्विधौ १,२,३३.
 विलुप्यपीत् निम् ४, ६: १०;
 ८,६: ३.
 विलुप्त- स: निम् १, १२: १८;
 १९; ५, ६: १; -सौ निम् २,
 १३: २४.
 विलुप्यमान- ने वीधौ २३,१३:
 १३.
 विलोप- य: निम् ८, ३: २७;
 अण ११,५५; -यम् अण ११,
 ५९; -ये निम् ८, ३: २७;
 -वेन निम् ७,२: २.

वि/लु > विल्ल- ना: अण ५०,
 ३,२, ७२,३,१३.
 वि/लोक् > विलोकन- नम्
 काधौसं ३५: १५.
 विलोकयत्- यम् गोष्ट १,२, १४;
 वीधौ १,५,१५.
 विलोचय अण ७०,११,२२.
 विलोम,मा- ना अण ३४, १, ५;
 -मानि अण ३४,१,१; -मा
 अण ३४,१,७.
 विलोमम्- न् आपधौ २,१९,६;
 वीधौ १, १६: १६; भाधौ २,
 १७,११; माधौ.
 विलोहित- न्त छुपा २, २०१;
 -तम् अण ७०,१०,१.
 विलम्- पाउमो २,२,२४३.
 विल्लौ अण ३,२,१३१.
 विल्लससे निप ३, ३; वा ३,१३६.
 विल्लित्तन्- वम् द.
 वि/वच्, वुवाच आपण १, १२,
 २४; द्विष्ट १,६,६५; विवक्ष्यति
 गा ७, ३०; विवोचत् वा ७,
 ३०१६.
 विवक्ष- क्कारि वैशि २०१.
 विल्ल्याचन- नम् वीधौ १८,१८:
 १४.
 विल्ल्याचनी- नो आपधौ १,१६,२
 विल्ल्याच्य- ष्यम् भाधौ ८, १२,
 १०.
 वु (वि-उ)य- ष्यम् आपधौ
 २१,१, ४-६; द्विधौ १६,४,५,६.
 वि-य (ग>)हसा- न्नाया: शंष
 ४१८; वीधौ १७, २४.
 विल्ल्या (ला-क)न्यवला- न्ययो:
 वीधौ १, ५, १३६.

o) पृ २२४४ p. १. b) पण. c) पाणे. वैष १ विरिष्टम् ने १,३,३८ टि. द. d) पाणे.
 वैष १ विरिष्टम् मा ११,१९ टि. द. e) = अर्धवपित्त-दधि- इति माध्वम्. f) अन्तम् इति पाण. g)
 इ) = मन्वरी-मन्- इति माध्वम्. h) वन. > वन. i) वैष १ द. j) वन. वा. विरि. l)

ॠचि वत्स्यत्- वि वस् (निवासे) द.
 वि वस्, विवदेते वा ७, ३०;
 वि...वदेते वा ७, ३०, विव-
 दशे निस् १, १० : १०; ३, १२ :
 ५, २६ x, भाए १, ११ : ३, वाए
 १०, ६, अप ७७, १, १; वाए
 १७, ६, भास् १, २३; विवदन्ति
 वाय १४, ४७, विवदेयाताम्
 शांश्री १४, २९, १, विवदेताम्
 विष ५, १८४.
 विवदिस्येते शांश्री १४, २९, १.
 वि वदमान- -नः शेष ३७७ : १२;
 -नयोः वाय १६, २, विष ८,
 १०; -नाम् विष ८२, २८.
 वि-वाद- -द शेष ६७, १, ४, -दम्
 वैष ३, ३, ८, आज्यो १०, २,
 -दे अपप २, २९, ५, विष ८,
 ४०, विष २, ६, १८.
 विवाद-क्रोध लोभ मोहा (द-अ)
 नृत-वर्जित्- -र्षो वैष ३, ६, ६
 विवाद पैशुन्य-सृपावाद-व-
 र्जित्- -र्षो आनिष्ट २, ७,
 १० : ११
 व्द्यु(वि-उ)दित- -त वीथी १७,
 ४ १२, -वम् वीथी १३,
 १ ७
 वि वध् (= वह्) > वि।वीथी
 वध- -वम् आपथी ८, १८,
 ९, वीथ ३, १, ८, २, ६, -ये
 आए १, १२, २, -येन वीथ ३,
 २, ६
 वैवधिक- वा ४, ४, १७
 वि, वी।वधिक- वा ४, ४, १७

वि वध् > वि-वध- -वम् वाए
 २९, ११.
 वि वध् > व्द्यु(वि-उ)त- > -त-
 वध- -तः द्विथी १३, ४, ३०.
 वि वध्, विवमेत् अप्राय २, ५
 वि-वध- वि वध् द
 वि वधस्- -वस थापथी १६, २४,
 ४, १७, १, १६, थाथी २, १,
 ६, २९, वैथी १८, १७ : ३६;
 १९, ३ : ७, द्विथी ११, ७, ३६,
 १२, १, ११.
 वि-वर्- वि वध् (आच्छादने) द
 वि वर्जयत्, -र्जित- वि वध् द
 र्चि वर्ण- > -र्जित्- -र्जिताम् रूप
 ६४, २, १०
 र्चि-वर्ण, र्णा- -र्जः रूप ६८, ५, ४,
 ७०, ११, ३, -र्णम् भाथी २,
 ८, ७, ११, १८, ७, रूप ३,
 २, ४, ६१, १, १४, मीष् ९,
 २, ३९, -र्णाः अप ५२, ७,
 ४, ६३, ४, ९, -र्णानि रूप
 ५२, ११, २, -र्णाभि आनिष्ट
 २, ६, १०, ४, वीथ १, ५, १४,
 -र्णासु रूप ६४, २, १०, -र्णो
 रूप ३, २, ५, -र्णोः अप ७०,
 ७, १८, ७१, ११, ५
 विवर्ण नेत्र- -त्रे अप ३, ३, १
 वि-वर्त- -र्तन- वि वध् द
 वि-वर्धमान- वि वध् द
 वि वस् (निवासे), विवसेत् द्विथी
 १७, ३, २४
 विवस्यन्ति गोपि १, ५ ११
 विवासयेत् विष ५, ३, ८

ॠचि-वत्स्यत्- -स्यन्त थाथी ११,
 ५, ११.
 वि-वास- -सा था ७०, १२, ५,
 वाय २३, २८, शेष २६१
 वि-वासन- > -ता (न-अ) इक-
 रण- -णम् शेष २५९
 वि-वास- -स्य विष ५ ११७,
 १७३.
 व्द्यु(वि-उ)त- -त. वाप २७, १५,
 वीथ ४, ५, ३०, -ते वाए ५,
 ४२, गोप २, ६, ८
 वि वस् (आच्छादने) > -वि
 वसल- -लो भाथी २ ५, १०.
 वीथी ३, १३ : १, भाथी १, ६,
 ३, १६, थाथी १, ५, ४, ३८
 वि वस् (आच्छादने), विवस शांश्री ३,
 ५, ३१
 वि वस् (दीर्घो), विवसते वा १२,
 ४१
 व्द्यु(वि-उ)वास गोप ३, ६,
 ९, वीथ १९, २८, २३८, ४
 विवासयति वीथी १४, २४
 २३
 र्चि-वास- -से थाथी २, १८, ११,
 वा ५, २८.
 विवास काल- -ले थाथी ४,
 १२, १
 र्चि वासन- -नाए वा १२, ४१,
 -नानि वा ४, ७
 विवासन-वध- -वात् वा ७, २६
 व्द्यु(वि उ)पित- -ते थाथी २, ५,
 २४, शांश्री २ ४, ३
 व्द्यु(वि उ)त, था- -पाप ५, १, १७,

a) सपा. माए १, ७, ७ विवदन्ते इति पाठे । b) आए, [पक्षे] वीथ पाठ । c) वैष १६ ।
 d) व्द्यु (स व्द्युसवध-) इति वा यति इति वा ? । e) नाप (मन्धन-वध्) । वस उप = आनु- ।
 f) मलो कस । g) वस । h) सत्र आपथी २०, २४, १७ प्रविष्ट इति पाठे । i) ॠचि वत्स्यत्
 इति आन । j) वैठ स्तु दु < वि वस् (आच्छादने) इति । k) पाठे वैष १ मै २, १३, १० हि द
 (१ १४ ५१ h अपि द.) । l) = उप-नाल- । m) उप भावे कर्तारि च इत् ।

-ष्टः आपथी १४, १६, १९,
२१, २, ११, द्वित्री १५, ५, १९,
-ष्टाम् पाण्डु ३, ४, ८, ९, -ष्टायाम्
आथी २, २, ५, काथी ४, ६, १३,
२०, ४, ३२, आपथी, -ष्टासु
वीथी २, २० ८, १७, ३२ ७,
१८, १९ ३, माथी ५, १३, १५,
वैथी ११, २ २, द्वित्री १६, १,
३५, वीथ २, ५, ६३, -ष्टे वीथि
१, ५, १

वैपुष्ट- पा ५ १, १०

व्युष्टि- ष्टे^b वीथी १२, २०

१९, २६, २ १६, -ष्टिः शाथी
१५ १६, ४^b, वीथी २६, २.
१९^b, ३ १०^b, १६^b, -ष्टिषु या
६, २१, -ष्टी आपथी १७, २,
१३, २०, २४, ३, वीथी १०,
४२, २२^क, माथी ६, २, १, २६,
काथी २, ३, १, १७, वैथी १२
४ ६, द्विथी १२, १, २६,
१४, १, २, पाण्डु ३, ३, ५,
-ष्टीनाम् वीथी २२, ८ ११,
-ष्टीमि वीथी १०, ४२ २३,
-ष्टी लाथी २, ३, १४^b, आपथ
१, ४, १५^क, आमिष्ट १, ५,
४ १०^क, क्रमाय ४, १^क, -ष्टी
शाथी २०, ४, ३२, आपथी २०,
१३, १०, वीथी १५, २२ ६,
काथी ३, ४, २, ११, द्विथी १४,
१, ६

व्युष्टि-सप्तष्टि^o -रथो लाथी
८, ११, ११

व्युष्टि-द्विराष्ट^o - पाण्डु ६, २, ८१

व्युष्टि-द्विराष्ट^o - अ काथी

१५ ९, १७, आपथी २२, १४,
१७, वीथी १२, २० २२, निव्
७, ६ : १०, -त्राय लाथी ९, ३,
५, -त्रे आपथी १८, ८, ४,
-त्रेण आपथी १८, २२, १२,
वाथी ३, ३, ४, ४८, द्विथी १३,
७, ३१

व्युष्टि-द्वयह^o - ह आथी ९, २,
२५, वैताथी ३६ ११, -हे
वैताथी ३२, ९

व्युष्टवा(ष्टि-आ) द्विराष्ट-कापिवन
वैत्राय-द्वयह^o -दानाम् वैताथी
४१, १

व्यु(वि ऋ) विवस्-> न्यूपिपी-
पी पाण्डु ३, ३ ५^क

विवस्वत्^o - पाण्डु ४१५ -^oस्व
आपथी १३, ९, ७, वीथी,
-^oस्वत् काथी ४, १३ ७, ६, ६,
८, ९, ९, ९, शाथी, -स्वत
^oशाथी ४ ७, ४, ५ १३, १५,
वीथी, वृदे २, ४८, ६, ६८, १६३,
७, ७, ११९, या ७ २६^क, १२,
१०, ११^क, -स्वते आपथी १४,
२५, ११^क, माथी, -^oस्वत्
काथी १० ४, ६, माथी २, ५,
१, ५, शुभ्र १, ४९३, -^oस्वत्^o
अप ४८, ७८, निप २ ३,
-स्वन्तम् आमिष्ट २, ४, ११
९, ६, ८ १८, शंष ११६
५८, वृदे ६, १५७, ७, ४,
शुभ्र १, १, -स्वान् आपथी २३,
७, ५^क, वीथी, द्विथी ३, ६,
२७, अम २, १०, ११^b, वृदे ५,
१४७, ७, २^o, शुभ्र १, १२^b.

वैवस्वत्^o -^oस्व वीथी २, १०
१३, वीथ २, ११, २१, -व
आथी १०, ७, १, ३, शाथी,
-वम् आमिष्ट २, ६, ३ २०xx,
वीथि, वीत् ४६, ३४, ८२, ३६,
अप ११६ ४५, -वथो अम
२, १०, १०, -वस्व वापथी ३,
४९ ३^क, -^oस्वत् आथी २, १९,
२३, आमिष्ट २, ६, ८ ३४,
वीथि ३, ६, ५, द्विथि १७^o
२२, अप ४३, ५, ४५, -वो
वीथी १०, १० ३३, वैथी १८,
४ २^क, -वो साम १, ३०५
वैवस्वती - वी साम १,
३४०

^oवैवस्वत्-पार्यद- वान्
आमिष्ट २, ६, ३ ३१, वीथ २,
५, २५.

वैवस्वत्-पार्यदी- ^oदी
आमिष्ट २, ६, ३ ३१, वीथ २,
५, २५

वैवस्वत्(त आ)दि- दि
वीम् ८६, २९

विवस्वत्-मुण- नथो वृदे ६,
१५४

विवस्वत्-देवगा->थ्य- नथम्
अम ६, ११६

^oविवस्वत्-या(त >)ना^o -^oते
आथी ४ १२, २

विवस्वन्^o - स्व द्विथी १२, ६, ६^क

वि√वह्, विवहस्ते^o माण्ड १, ७, ७,
^oविवहाय^o माण्ड १, ७, ६,
वीथ १, ८, १८; शांथ १, १३,
४, पाण्डु १, ६, ३, पाण्डु २५.

a) वेप १ ६ । b) = द्विराष्ट विवस्वत्- c) = पाण्डु विवस्वत् । d) अम > अम । e) पाण्डु
वा १, १७ पुषी ते ४, ३, ११, ५ दि ६ । f) वेप १ निर्दिष्टो उपायितः ६ । g) = मनुष्य- । h) = अत्रि
विवस्वत्- । i) अम (मनु, वन-) । j) पाठ इ इति इत्या विवह-ते इति G [ZDMG ५१, १३-] सोप ।
पाण्डु ३ २२४९ व ६ । k) पाण्डु वेप १ सुरमायदे ते ४, ४, ७, २ दि ६ ।

२७, माण्ड १, १०, १५, त्रिवहेयु
 वीण्ड ३, १३, ६, वाण्ड ५, ३,
 गोण्ड २, १०, ५
 ष्युहववे वीण्ड ७५, ५५^१
 विवाहयेव कप्र ३, ९, ४, विवा
 हयेयु वीण्ड ३, १३, ७, वाण्ड ५
 ३, वाण्ड ११, ७५
 वि वदमान- ना भाषण १, २९,
 ८^१, वीध २, १, ४९, विण्ड १,
 ७, ६५
 वि-वाह^१- ह वीधोत्र २ ३, ५४
 ७, वाण्ड १, ६, १, आपण्ड ३, ९,
 काण्ड २५, २५ वीण्ड १, १, ३,
 २४, वाण्ड १०, २, वैण्ड ३, २१
 ३, वीण्ड ७५, १, ७२, ३१, आपण्ड
 २, १०, १, १२, ४, वीध, -हम्
 आण्ड १, ४, २, वीण्ड १, १, १३, वैण्ड
 ६, २ ८x८, आपण्ड, -हस्य आपण्ड
 २, १२, वीण्ड १, १, १८, २०,
 ५, १४, -हा वीधो १५, १७,
 १, वैण्ड ३, १ १, वाण्ड १
 २८, वीध १ ११, १, विध २४,
 १७, -हाव वाण्ड ११, २, वैण्ड
 ७, ५ ३, वीण्ड ८४ १२, -हाव
 वीधो १२, १८ १०, अण्ड १२,
 ५(५)^१, अण्ड २४, १५^१, -ह
 आधो ११, २, ६, आपधो २३,
 १, १५ दिधी १८ १, २०, आण्ड,
 -हेन विध २४, ३३, -हेण्ड अण्ड
 २४ १, ३, वाण्ड १४, २५ विध
 १७ १९
 वैवाहिक^१- कम् वीण्ड १
 १०, २०^१, वैण्ड ३, ५ १, वाण्ड

२७६, -का वृदे ७, १३८, -के
 कप्र २, ९, ५
 वैवाहिका(ह अ)भि- नौ
 विध ५२ १
 विवाह कण- -गम् अण्ड ६८,
 ५, १३, -णानि भाण्ड १, ११
 १^१
 विवाह-कल्प- -स्य वीण्ड २२,
 ३२
 त्रिवाह-अण्डक- -काणि^१ माण्ड
 १, ७, ६, वाण्ड १०, ५
 त्रिवाह-अण्डक- -ले वैण्ड ६ १२
 ४
 त्रिवाह ज- -ज अण्ड ३७, ९, १
 त्रिवाह प्रकृति- -तिम् आण्ड
 १, ६, ३. ५९, ६०
 विवाह-मन्वा(न-आ)सिस्-
 -शिय अण्ड १४ १
 विवाहमन्वा^१ -आ (य >)
 वा^१ -या कप्र २ १०, ८५
 विवाह मैथुन-नर्मा (मं आ) संस
 योग- -नेणु वीण्ड २३, ३०
 विवाह विज्ञ-कह^१ -नी सण्ड
 ३७७ १०
 विवाह श्मशान- -नयो पाण्ड
 १, ८, १२
 विवाह सिद्धय(दि-अ) -वेम्
 वीध १८ २५
 विवाहा(ह अ)भि- -भि आण्ड
 २, ७, ४ १०, वीण्ड ४ १०, २,
 अण्ड ३७ ११, १, -दिम् आण्ड
 १, ८, ५, ९, वैण्ड ३ १४ ६,
 -नौ वैण्ड ६, १५ २

विवाहा(ह-अ)दि- दि नौ
 कप्र १, ५, ५
 विवाहा(ह-अ)नवाह-
 अण्डकम् आण्ड २, ५, १० १०
 विवाहा(ह-अ)न- -ने वैण्ड ६,
 १४ ५
 विवाहो(ह-उ)क- -केन अण्ड
 १३, ३
 विवाहो(ह-उ)दक अण्ड-सण्ड-
 विण्ड- -आण्डकम् वाधो २४ १,
 २३
 विवाहो(ह-उ)पनयन समारंजन
 सीम-त चौक गोदाल प्राण्डि-
 अ- -सेणु आण्ड २, २
 विवाहा^१- ह लाधो ८ २, ११,
 काण्ड २४ १^१, माण्ड १, ९, १^१,
 वाण्ड ११, १^१, गोण्ड ४, १०, २४^१,
 वाण्ड ४, ४, २४^१, -अण्ड वीण्ड
 ३, १०, ३२^१
 वैवाहा^१- ह पाण्ड १, ३,
 १^१, -अण्डकम् वीण्ड १, ३ १७
 ८^१, वाण्ड ८, १, -अण्ड वीण्ड
 २, १५, ६^१
 वि-वाह^१ > वैवाह^१ > -न
 काण्ड ४७, १
 वि वाहविष्य- -कम् काण्ड २६,
 १
 वि-वाह अण्ड ४२
 ष्यु(वि-उ) ह काधो १५ १, १८,
 काठयो ६३ ६९ वाधो
 ष्यु(वि उ)अमान- ना अण्ड ३
 १० २६, -नाण्डकम् अण्ड ३
 ११ १३

a) पामे वैण्ड १ १९४५ b द । b) त्रिवाह इति पाठ ३ यनि श्लोक (तु वीध दिव) । c) = सखा-
 विरोध । d) विण्ड । तनन्वीयण कम् प्र । e) सखा वैवाहिकम् <> वीधकम् इति पाम । f) सखा
 अण्डकानि <> अण्डकानि इति पामे । g) वण्ड > हस (तु पड्युगविष्य) । h) अण्ड । e) विण्ड । अण्डि
 तस्येदमर्थे वा अण्ड प्र । j) सखा विवाहा <> वैवाहा इति पामे । k) सखा विवाहाण्ड <> वैवाहा
 इति पामे । l) स्वायं प्र । m) विण्ड (अभि) । n) = विवाह । o) तस्येदमीम अण्ड प्र ।

प्यु(नि लु)ह(ल्ह^३),वा- डः आभ्री
 ८, ८, १, १०, ३, २, २१, ५,
 छुम्, -डम् बाधुभ्री ३, १३
 १४, हिथ्री १६, २, १३, द्राभ्री
 ८, १, २६, लाभ्री ४, ५, २१,
 ६, ११, निम् २, १० २१,
 -डस्य आभ्री ८, १२, २५,
 १०, ९, ८, बाभ्री ३, २, २,
 ४०, ४१, बाधुभ्री, -वा
 आपभ्री २३, १६, १८, ३, १३,
 लाभ्री १०, ३, १२, -वाहु हिथ्री
 १३, २, ३४, -डे गाभ्री १०,
 २६, २, आपभ्री २१, ७, १७,
 १४, ५, हिथ्री, -डेभ्य छुम् १,
 १ २२, -डेपु छुम् १, १ २६
 भ्युह-उभ्यम्^३ -न्दस बाधुभ्री
 ४, ७४ ३२, -न्दसम् गाभ्री
 १३, २१, ८, -न्दसि काभ्री १२,
 ६, २२, -म्दा गाभ्री १६, ३०, ३
 प्युव-जाजु^३ -जु कौष्ट १, ६,
 ७, मांष्ट १, १०, १
 प्युव-समुह-ख- खम् मीम्
 १०, ५, ७९
 प्युवा(ह ३भा)ग्य- ज्ये निघ
 ३, १, ५०
 पि/वा, भूविवाति आपभ्री १६, २६,
 ३, वैभ्री १८, १८ ८, हिथ्री
 ११, ७, ४५
 विपाकु^३ (>वैवाकरि-)
 भूवि वाच्^३ -वक् आप ४८, १०५
 निघ २, १७, -वाच गाभ्री १२,
 ४, १०, वीथ्री १८, ३१, १५
 -वाचि ऋषा १६, २२

वि घाचन-, प्य- वि/वच् द
 वि वाजिन,ना^३ -नम् गाभ्री १, ६,
 ६, २८, -नाम् वीथ्री ५, १ २९,
 माभ्री १, ७, १, ३५, गाभ्री ८, २,
 ३, -नामि माभ्री १, ८, ५, १४
 वि घाद- प्रष्ट. वि/वद् द
 वि वान- वि/वे द
 वि वार- वि/वृ(आच्छादने) द
 भू/विवास^३, विवासति वार ४८,
 १०, निघ ३, ५, विवासि गा
 ११, २३६
 रवि वास- वि/वस् (निवासे) द
 रवि वास- वि/वस् (दीर्घी) द
 रवि-वासन- वि/वस् (निवासे) द
 रवि-वासन- वि/वस् (दीर्घी) द
 वि-वासस्^३ सा अन ४०, १, १४
 वि वास्य- वि/वस्(निवासे) द
 वि वाह-, षन- प्रष्ट वि/वह् द
 विवि घन्त्- वि/वह् द
 वि/विच्, भविचमि हिथ्री १३, ४,
 २२
 विविचिकि काभ्री २, ४, २०,
 आपभ्री १८, ११, १३, वीथ्री,
 भूविचिनकु आपभ्री १, २०, ११,
 वीथ्री १, ६ २५, गाभ्री १, २२,
 ६, गाभ्री १, २, २, २३, गाभ्री
 १, २, ४, ५८
 भूविचिष्यन्ते वीथ्री १०, १०
 २, ५ १५, ६ ७, वैथ्री १८,
 ४ २, १, भूविचिष्यन्तम्
 गाभ्री १, २, ४, ५८
 विघेषयति वृदे २, १८
 वि विक- पाग ४, २, ८०१, -कात्

वाभ्री १, २, ४, ५९, वैथ्री ४, ७
 १४, -के वैष २३, ५, ३ ९,
 ६, वृदे ३, २०
 वैविकीय- पा ४ २ ८०
 वि विच्^३- विघे गाभ्री ५, १, २,
 १३^१
 वि-विच्य आभ्री १, ५, ९, वैथ्री
 वि-वेक- क निम् १, ८, ४, ९:
 ६, ११, -कम् वीथ्री १५ ६
 ८, -केन गाभ्री ५, १, १, ११
 वि वेकिन्- वा ३, २, १४२
 वि वेचन-> पन-वर्गम् वैष्ट ४, ५
 ११
 विवेचन(न अ)न्त्^३- स्ता
 गाभ्री ६ १६, २७
 विविचि- वि/वृ द
 वि विच्य वि/विच् द
 विचित्समान-, विविदिवस-, विवि
 हस- वि/वृ (कामे) द
 वि/वि(⟨व्य)च्, विविच्यमि वाष्ट
 १५, ८^१
 वि विघ,घा^३-घ गाभ्री १४, २८,
 ११^{१६}, -घम् आपभ्री २, ४, ७
 १३, आप ४, २, १३, ६, १, ७, २६,
 ३, २, ५, ८, १, ६, ५, ५, वृदे, -घा
 आप १, ४१, ८^१, -घा आप १,
 ११, ४, ६८, ५, १४, वृदे ४, १२,
 ७, ८०, वाईष्ट, ६^१, -घान् आप
 ४, २, १२, १९, २, २, ५, ५, विघ,
 -घानि आपभ्री २, ७, ६ १५,
 निघ १, १५ ४३, ४५, वृदे १,
 ३, ४६, ५, -घानु ऋषा १४,
 ३, आप ३१, ४, ४, -घेन आप

d) आभ्री गाभ्री वीथ्री पाठ । e) वन । f) वृ १२२८ छु, छु द । d) वैष १ द । e) मा २२,
 २१ परागृष्ट द । f) वृ (उ प्रकारणम्, तथा आपभ्री १८, ११, ११ विविचिकि इति पाठे य) । g) वृ
 पागम । ऋष १ । h) = विविचि- उप विच् द । i) विविच्ये (वृ आपभ्री २, १, १८) इति परागृष्टं छि
 शोषे ? (वृ आपभ्री २, ३, १९ विष्टे इति पाठे) । j) विघ, नान (एकह लक्ष्मी) । कन । k) पाठ ।
 विघ इति ० शोष (वृ आभ्री २, ६, १९) ।

३३९, -धै अय ध, २, १५,
 ६, २x संघ.
 वैविध्य- -व्यम् वृदे १, १४, १६.
 विविध-कर्मन्- -मंणाम् वाय २०,
 ४३.
 विविध-गामि-ख- -त्वाद् वैध १,
 ११, ११^०.
 विविध-दर्शन- -नात् वैध १, ११,
 ११.
 विविध भय-समाहित- -ता. अय
 ५१, ४, ५
 विविध-यज्ञ-ठलु- -नुम् सु १, २
 ? विविधसार- -राणाम् वैध १, ११,
 ११^०.
 विविधा(घ-आ)चार- -रा वैध १,
 ८, १
 विविधा(घ आ)सुधा- -धैः वृदे ६,
 १११.
 विविध(ध-ए)क-शोध- -वै अय
 ७२, ६, २
 विविशिवस्, -श्वस्- √विश् द
 विविष्किर- वि-पू/कृ द
 विवीतान्त- वि/व्ये द.
 वि√वृ(आच्छादने), वि...वृधि आपथी
 १२, १६, ५^१
 विवृणुते या १, ११, ३, ५, विवृ-
 णोति काथी ७, ७, १८, चौए १,
 ६, २५, विवृण्वन्ति बौथी ८,
 १० ४, १५, १७ २७, वैथी
 १६, ११ १२, व्यवृणोस् या १,
 ७, व्यवृणो या १०९
 वि...ववार बौथी ८, १४
 २०^१, विविधु^१ आप्त २, ११,

३०, भाशि २२, वि...व्यर्थ
 भाशि ५४^१, वि...अय^१ श्रधा
 १, ११^१, वि...भा. आथी ४,
 ६, ३, १४, २; बाथी ५, १, ५ या
 १, ७, १२, ५^१, श्रधा, फि(आव)
 श्रधा २, ७, ७५x, वृदे, फ(वि)
 भाज श्रधा ४, ४०, १०, ३, ११,
 ७, उम्; फिवि आथी ४, ६, ३,
 शौथी ५, १, ५, श्रधा १, ११,
 श्रधा १, १६४, तैत्रा, वि...व
 या १०, १^१कृ
 वि-वर्- -रम् वृदे ६, १२३.
 विवार- -रः आशि ८, ७
 विवार संवार- -रौ आशि ८, २६
 वि-वृत्- -वृत् माथी २, ३, १,
 १२^१
 वि वृत्, ता- -रम् तैत्रा २, ४५,
 शौच १, २१, भाशि, -जा याशि
 २, १४, -ताम् वाय ६, २०,
 -ते श्रधा १३, १, तैत्रा २, ५,
 आशि ८, १०, -तौ वाय ७७,
 ७८, पाशि २१
 विवृत-कण्ठ- -व्या आशि ४, २
 विवृत-करण- -जा आशि ३, ७
 विवृत-ज्योतिष्क- -व्य या ५,
 २०
 विवृत-तम- -मम् शौच १, ३४
 विवृत तर- -रौ आशि ३, ८
 विवृत-ता- -ता आशि ८, ४
 विवृत ल्व- -वम् आशि ८, २५,
 -त्वाद् आशि ८, ७, पात्रवा ४,
 १०
 विवृत-लक्षण- -गम् शौचि

२४७
 विवृत सवृत्- -न्म् पाशि २०
 विवृत स्मयन- -न्म् आथी १२,
 ८, ५
 विवृता(त-आ)गम- -नौ शैथि
 ३४२
 विवृतो(त उ)पदेश- -क पात्रवा
 १, १, २, -शाद् पात्रवा १, २
 वि-वृति- -व्या उम्^१ ७, १, ७, १२,
 माशि ७, ७, १०, ८
 वि वृत्त्य काथी १, ८, २४, १०, ७,
 ४, बौथी १, १३ २६, माथी
 वि√वृ(दीप्तौ), फिवि^१ आथी ७,
 ११, १४, १६
 वि-वृक्कण- वि/वृक् द
 वि√वृक्, विवृक्केर माथी ११,
 ११, ७
 विवृक्केर कप १, १, ५, अय
 २३५, २४२, ३४०, निध
 वि वृक्केर- -यत् आथी १२ ९
 वि-वृजित- -त सु १८, ५ अय
 ६२, २, १, वाय १०, १२, -वम्
 आशि २, ६, ७ १२, अय २३
 ११, ५, -जा माशि १, ७, -ते
 अय २१, ३, ५
 वि√वृत्, फिविर्वेते वा २१, ३ १२
 वि...वृत्तम् अय ३२, १
 ६^१, फि(वृत्तम्) बौथी ५८,
 ३, अय ३, ३१, अय २ २१
 विवृत्तवति आपथी ५ ५ १०,
 विवृत्तवन्ति बौथी ८, २० २५,
 १६, ३ १२, २३, १ १४,
 विवृत्तवैव अय ५३ ६, ४

a) वसः । b) कुपयगामि^० इति BI । c) कप > वस । d) पाठ १ (अ स्तरणम् इति BI) । e) वस > मलो कस । f) वामे वैप १ विवृत्तम् अ ४, १, १५ टि द । g) वैप १ अ ५ ११, ३ टि द. । h) वैप १ द । i) नाम (प्रयत्न) । उप करणे चम् । j) वामे वैप १ विवृत्तम् ३, १, ६, २ टि द. । k) विव, नाव (विवात्-) । l) विवृत्तया इति Pertsch । m) वैप १ बौ ३ २१, १ टि द ।

वि-वर्त^० - -ते वीथी १०, ४२ १६,
 -ते वैथी १०, १४: १३.
 वि-वर्तन - -ने आपथी १३, २०, ११.
 वि टूच, ता - -त्तम् वीथी ४, ६
 ५५, -त्ता नाशि २, १, ७, -चा:
 माथी १, ३, २४^१, -त्ताम् नाशि
 २, ६, ८.
 विवृत्त-च(व)का^० - -का ०
 आपत् २, ११, १२, १३, आप्रिष्ट
 २, १, २ १७, वीथ
 वि-वृत्ति^० - -त्तय श्रपा २, १३, ६७,
 ७९, माशि, -त्ति वाथी १२,
 १३, ६^१, श्रपा २, ३, शैशि १९६,
 पाशि १४, माशि, -त्तिय श्रपा
 १५ १२, -त्तिषु अप ४७, १, १,
 श्रपा १४, ५९, -त्तीनाम् शैशि
 १८१, माशि ९६, माशि २, ८,
 नाशि २, ६, ११, २, ४, ३, -त्त
 श्रपा २, ५६, -त्ती शीच ३, ६३,
 शैशि ५२, माशि १, १५, -त्ता
 श्रपा ३, १७, शुपा ७, ६
 वीवृत्त^० - -त्त तैरोव्यजन-
 -नी श्रपा ३, १८
 विवृत्ति-पूर्व^० - -त्त श्रपा १४,
 ६१
 विवृत्ति प्रव(व)वा^० - -वा
 वाशि २, ४८, -वाम् वाशि १
 ७५
 विवृत्ति लक्ष्ण^० - न शुपा १,
 ११९
 विवृत्ति-विराम - म तेषा २२,
 १३
 विवृत्त(ति-ञ) त - -त्ते शैशि

४२
 विवृत्त(ति-ञ) निप्राय^० - येषु
 आपा ४, ६८
 वि-वृत्, -त्, -त्ति, -वि-वृत्त
 वि √ वृत्, विवर्धते वाथी १३, १४
 १०, श्रप ५३, १, ३, वाद्य ७,
 २०, २९, निवर्धन्ते आपथी २,
 १२, ५, विध ३, ९५, विवर्धते
 वीथि ५३, विवर्धेरन् वाथी ५,
 ११, १३, माथी ६, १६, ५
 विवृष्येत् मीम् ५, ३, ३.
 विवर्धयेत् माथी २, २, १, ५०,
 विवर्धयेषु वाथी १६, २०, १
 वि-वर्धमान - -न. अ ७०^१, ११,
 १२
 वि वृद्ध, ङा - -ञ आपथी २०, ८,
 ७, द्विथी १४, २, २७, -त्ता वा
 ९, ७६
 विवृद्ध-नेजत्^० - -जा तु १, ३
 वि वृद्धि - -दि आपथी २४, ४,
 १४, आपद्य १, ६, उनिम् ३,
 १०, मीम् ५, २, १४, ३, १, -त्ते
 वाद्य ३, १२, -त्तौ मीम् २, ३,
 ३४, -त्तया वा २, १६
 विवृद्धि नाग - -त् अ ७०^१,
 ११, १७^१
 वि √ वृद्ध > विवृष्यण, ङा - -वा
 वा ६, १७, -त्ता आपथी ४,
 ६, १, माथी ४, ७, ४, द्विथी ६
 २, ९
 वि √ वृष्ट, वृष्टि, विवृष्टामि आपम १,
 १७, १-६, पाथ ३, ६, २, विवृष्ट-

त्तम् वीथी १३, १७: ९, १८
 ४, माथी ५, १, ६, १४, अथ ७,
 ४२
 वी (<वि)वर्ध^० - -र्धम् वीम् २७,
 २७
 वि वृहत् - हति वीम् ३३, १, ३५,
 ३.
 विवृहन्^० - -दा श्रप २, १०, १६३
 वि √ वे, विवर्धयति वाथी १७, २, १,
 विवर्धेषु वाथी ८, ८, १३
 वि-वर्धन्^० - -न्म् वाथी १०, ४, ८,
 वाथी ३, ११, ७
 वि वान^० - -न्म् वाथी २६, २, ८
 व्यु(वि-उत्त)वा - -त्ताम् आपथी
 १५, ५, ७, माथी ११, ५, ९,
 माथी २, १, ४, ३४
 व्यु(वि-उत्त)वा^० - -ता वीथी
 ६, १०, ८^१, १०, १२: ५^१,
 -त्ताम् वीथी ११, १: १२, २२,
 १३ ६, द्विथी २४, २, ४^१,
 वि-वेक - प्रथ वि √ निष् द
 वि √ वेप्, विवेपताम् मीम् ५८, ११^१
 वि √ वेप्, विवेपयति माथी ६,
 १, १, २४, द्विथी ११, १, २८,
 १३, ५, ७६
 वि वेष्ट्य आपथी १६, ३, ३, वाथी
 वि √ व्यष्ट, विव्यय वीथी ९,
 १७ १८, माथी ११, १८, १
 वि √ व्ये > वि-वीत्त - > वा(त-थ)
 त्त - -त्ते विध ५, १४७
 √ विश् (वधा)^० वापा दृश पर
 प्रेक्षते, विनात् आपम १, १७,
 ७^१, विनाति वापथी ४, २७

a) वेप १ द । b) पति वेप १ विवृत्ता वि १०, ४६, ४ डि द । c) वत्त । d) वत्ता, पाथ १, १५, ८ मरि-
 मुकच्छे इति पति । e) पतिमपि न वत्ता । f) तु ७, वेप माप्यम् उत्तरेण तामलमिति । g) = रात-
 विरेप- । तत्रावतीव प्र । h) वम वा वत्त वा (तु भाष्यम्) । i) मम वीम् पाठ । j) = ऋवि-दि, १- ।
 *द्व- इति भाष्य. 1 । k) = लवपनसापम । लउ विधेय । उर वरुण प्र । l) उर प्र भेद । m) परश्वर
 पति । n) सप्रपाणस्य दीर्घ उम (वा २, ४, २) । o) ३३ २, ६९ वा १२, १८ वा ३, ४, ५९ पाठयत् द ।

३; वैष ३, १४, ९; वृदे ८, १४०^१; ऋविशतु द्विधौ ७, १, ११; अणु १, २३, १९, ऋविश-
ताम् आपधौ ५, १५, २^१; वीधौ,
ऋविशन्तु आपधौ २, २, ६,
माधौ २, २, ६; माधौ,
ऋविश वैधौ २०, ३१ : ९;
द्विधौ ३, ३, २६, पाणु, विशे
वौधौ ६, ३ : १३; माधौ २,
२, ४, १९; अविशत् वृदे २,
४१, अविशताम् वैताधौ १२,
१, विशेत् शंघ ३८७, वैष ३,
१४ : ९.

ऋविश आधिवृ २, ५, ८ : ३३,
वौधु २, ७, २३, वृदे, ऋविशेश
शुभा २, ५२, याधि २, २२,
विशिशु तैसा ८, ३२^१.

विविशिवत्-^१ अघ्न- पा ७, २, ६८.
विश्व^२- पाण ५, ४, १०७, विशु
आधौ ७, १२, २^१, माधौ,
विट् आपधौ १७, ६, ९, १६,
३२, ४^१, १७, १७, ४^१,
वौधौ, विट्शु वौध १, १०, ४,
ऋविश्वः आधौ ८, २२, १,
या ७, २, ४, विश ऋमाधौ १, ६,
५, ४, आधौ १, ९, २, ४, ४,
वाधौ ३, ४, १०^१, १७, ५,
१२, २२, ११, ८, ऋआपधौ १,
१६, १२, ४, ३, १२, १^१, वौधौ
१, १३, २८^१, ४, २६, ५ :
२०, वाधौ ३, १, २, ३, १७,
३, २, १, वैधौ, लाधौ ९, ४,
२२, वैताधौ ३९, १५,
शाठ ३, २, १, वौधु ३,

६, ३; ७, २६, वप्र ३, ८,
१२, अण १, ६, १; ४८, ७८;
विश २७, १७, २६, निष २,
३^१; विश ङविश आधौ ९, ८,
१०^१, शाधौ, वीधौ १७, ४ : ३५,
ऋविशम् आपधौ ७, ६, २; १५,
११, २, ४, ४; ऋविश आधौ
७, १२, ९, आपधौ, ऋविशाम्
वाधौ ६, ४, ३, आपधौ,
ऋविशाम् अणाय २, ५, अण
३७, ५, ४, ऋविशि आपधौ १२,
१५, २, १६, ५, २१, २१, १८,
१८, ६; वाधौ, विशे वाधौ १७,
२, १९, २५, ऋआपधौ १२,
१५, ८; १६, ३५, ५; वौधौ,
विशेश्विशे या १०, ८^१.

वैश्य, इया^१- इय. वाधौ
१७, ३, २०, १५, ५, ३०, १६,
१, १७, २२, १, २९; आपधौ,
वौधौ २, १२, १५, माधौ
५, २, २^१, १४, माधौ, -इयम्
आपधौ १२, २४, ५, १७,
१९, ६, ८, वौधौ, -इयस्य
आधौ ७, १५, ५, शाधौ १,
१, ३, २, १, ३, ३, ७, वाधौ,
-इया^१ वौधौ १२, १८, ९, वाय
१७, ७८, शंघ ६५^१, ७२, वौध
७, २, ०; -इया आपधौ १८, ५,
१६, २०, ५, १३^१, वैधौ, -इया^१
वौध १, ४, ९, ९, ५, ७; वैष,
-इया^१ अण ५७, १, ३, -इयानाम्
वौधौ ५३, १, अण २६,
४, ३, ४, विश, -इया^१ वैष ६,
१२, २, वाय २०, ३९, -इया^१

आपधौ २२, २६, ५, वौधौ १२,
९, १२, १८, १ १७, द्विधौ
२३, ४, ११, निष्, -इया^१
वाय १८, ३, शंघ ७५, ३९९,
५००, ५०१, वौध, -इयै शाधौ
१६, १७, ३, आपधौ १७, २९,
१८, वौधौ २, ५ : १४, ९, १३
२५, द्विधौ, -इयैत माधौ १०,
७, ३६, द्विधौ १०, ३, ३२, वाय
१८, ४, शंघ ७५ -इयौ नाधि
१, ४, ४

वैश्यी^२-इयौ आण्यो
१२, १.
वैश्य-कम्वा-अयवा विष
२४, ७.
वैश्य-कर्मर- मं वौध
७, २६^१
वैश्य-बुल- लाद गो
१, १, १५
वैश्यकुला(ल-अ)म्
शिव-महात्मल- सार वाधौ
७, ७, १५
वैश्य प्रीविका- अण
वाय २ २४
वैश्य तस() वैष ३, १३,
५

वैश्य-पशुधाम- अयो
वाधौ २२, ९, ७
वैश्य-अश- ल वाधौ
२२, १९, ७, निष् ७, ४ २०,
१० - ९
वैश्य-रात्रय- न्यवो
वाधौ १, ६, १६, ७, ४, १३, १०,
९, २९, १२, ३, १९, द्विधौ ८, ५,

a) नाम (प्रधान- वैश्य-)। b) वैष १६। c) तथा कठ ५, २ ऐशा ५, ३, २ विभम् इति पामे। d) तथा वी १, २१, १, ८, ५, २२ विश्वाम् इति पामे। e) पामे वैष १, २६४ इ १। f) वृद्धित पाठ इति वृत्ता ननि समाविशाम्क शोष. (दु वौधौ २, १२ १५)। g) वैश्यजातीवाधौ। h) वैश्य-वली-। टीप् प्र. (पा ७, १, ४८)। i) समाहारे हस।

४२; -न्वो वैश्वौ ७, १२:५;
 १५, ३१:२; द्विश्वौ ६, ४, ११.
 वैश्य-वत् शौच २२, २०.
 वैश्य-वध- -ये विध ५०,
 १३.
 वैश्य-वर्ग- -ान्म् श्य
 ७०, १०, २.
 वैश्य-वर्जम् विध १८, ८.
 वैश्य-वृत्ति- -न्ति: कौशु
 ३, ११, ४६; शाश्व ४, ११, १५;
 बाण ९, २०; शौच २, २, ७२; वैश्व
 ३, १२, १२; गौध ७, ७.
 वैश्य-मज- -जम् वाधुश्री
 ३, ७६: २५.
 वैश्य-शूद्र- -द्रयो: वाध
 ३, २४; गौध १०, ४१; १४, २३:
 -द्रा: शौच १, ११, १४; -द्राणाम्
 शौच १, ११, १३; -द्रान्याम्
 विध १६, ५; -द्री वाध २६,
 १६; विध १८, २५; ६७, १७.
 वैश्यशूद्र-प्राय^१-
 -यम् विध ३, ५७.
 वैश्य-सव- -व: शौधी
 १८, ३: १३.
 वैश्यसव-वत् आपधी
 २२, १०, ९.
 वैश्य-स्तोम^२- -म: काश्री
 २२, ९, ७; -मस्य चुम् २,
 १:६; -मे लाश्री ८, १०, ५, १२.
 वैश्यस्तोम-वृत्ति-
 लिङ्ग^३- -द्र: काश्री २२, ११,
 ११; -द्रात् काश्री २३, ४, ४.
 वैश्यस्तोम-वत् नीच
 १०, ८, ३४.

वैश्य-हरया-वत्- -न्म
 शौध ४०२.
 वैश्य-हिंसा- -भयाम्
 वाध २०, ३८.
 वैश्या(श्य-आ)दि- -दियु
 शौध २, २, ५१.
 वैश्या-शुभ- -म: विध
 १६, ४; १८, ४.
 वैश्या-वत् शंभ ३९९.
 वैश्या(श्य-आ)शौच-
 -ये विध २२, १२.
 वैश्या(श्य-उ)च्छिष्टा-
 (छ-अ)वात्- -ने शंभ ३९६;
 विध ५१, ५१.
 वैश्या(श्य-उ)च्छिष्टा-
 (छ-आ)सिन्- -शी विध ५१,
 ५५.
 वैश्या(श्य-उ)पवात्-
 -ताय श्य ५८^४, ४, १५.
 विद्-काम- -म: निम् ७, ७:८.
 विद्-कुल- -लात् आश्री २,
 २, १; शेषि ८०; २५५^५.
 विद्-क्षत्रिय- -वा: श्य ५७,
 ४, ५.
 विद्-शूद्र- -द्रयो: विध २२,
 २३.
 विद्-स्तोम- -म: निम् ७,
 ७: ५; -मत् निम् ७, ७: १०.
 विद्-आयत्न- > एवो(य >)-
 वा^६- -वा लाश्री ६, ६, ८;
 निम् १, १०: २३; २६; -यम्
 लाश्री ६, ६, ७.
 विद्यापत्नीया(य-य)म्-
 प्रथमा^७- -मात् निम् १, १०:

२७.
 विद्-भूत- -तस्य निम् ७, १०:
 १२.
 विश्वीय^८- -यम् निम् ७, ५:
 ४१.
 विश्वो-मग- > एवो(य >)
 ना- -ना^९ आपश्री ३, १०, २;
 ४, १३, ७; भाश्री ३, ११, १;
 ४, ११, ७; वैश्वौ ७, १०: १०.
 विश्वोविशीय^{१०}- -यम् आश्री
 १०, २, ७; निम् ७, ४: ३९;
 ६: १९; ११: ४; ८, ६: ३६;
 -ये लाश्री ६, ११, ८; १२, १२.
 विश्वोविशीय-वृत्ति-
 -तीनाम् लाश्री ६, १२, ११.
 विश्वोमत्^{११}- -जा: श्य ५,
 ३९^{१२}.
 विश्व-वृत्ति^{१३}- -न्ति: शश्री १२,
 ११, १८; शश्री ६, ४, ७; लाश्री
 २, १२, ८; शौचि: वा १२,
 २९^{१४}; -तीना शश्री १३,
 २१: ५; द्विश्वौ २२, ३,
 २७; -निम् वा ४, २६^{१५}; -ती
 ५, २८; श्य ४, २४; ९०;
 -स्या माश्री ५, १, ६, ११.
 विश्वश्री^{१६}- -श्री आपश्री
 ५, ८, ६; शौधी २, १५: ७;
 भाश्री ५, ४, ७; माश्री १, ५,
 २, ३; वाश्री: -न्त्ये आश्रिण २,
 १, ५: २०.
 विश्वय^{१७}- -इवेव^{१८} शौधी १७,
 ४१: २३; आपत् २, ८, ४;
 आश्रिण १, ३, ४: १६; द्वि
 १, १०, ६.

a) यद्य. b) श्वाद्य इति जीवे. c) = एकाद-विशेष. d) एत. > एत. e) एतदस्तोम-
 विष्णुति. f) यद्य. > एत. g) = साम-विशेष. h) पाठ: विश्वोविशीयम् इति शौच: (द्र. निम् ७, ६:
 ११). i) व्यु. पाठे. च वैप १ वैश्वभगिनी टि. द. j) वैप १ द. k) = वैश्य-। रार्ये एत प्र. l
 l) पाठे. वैप १ विश्वेषु ते ५, ७, ६, ४ टि. द. l

विश्व- (> २विश्व-) पाग ४, ३, ५७^४.

विश्व- > विश्व-कर्म- पा ६, ३, ११५.

विश्व(वप्रा.)- पा ३, २, ११६; पाग ४, ३, ५४^४; ४, १२^६; ८, १, ६७; -श्वान् कर्मो ४, २, १२; आपथो ३, १०, २; माथो ३, ११, १; माथो ३, ३, ५, १४; वाथो ३, ३, ७, १३; हिथो २, ५, ४४.

विश्विक- पा ४, ४, १२.
विश्व-भग- > श्री(न >) वा- ना^४ आपथो ३, १०, २; माथो ३, ११, १; माथो ३, ४, ३, ३; वाथो.

विश्व-यम(न >) श्री- श्री^४ माथो ३, ३, ५, १२; वाथो ३, ३, ७, १५; ४, ४, ४१.

विश्व, हवा- पाग ६, २, १२१; पा ४, ३, ५४; -इयाणा^४ शंभ २६२; -इयाया^४ शंभ ४३४.
विश्विक- के गोष २२, २९.

विश्व(श्वान्-श्व)विश्व- > श्व-पतित-श्वद्वयुक्त्वा(श्व-अ) तिरोगिन्- शिवा: वप्र २, ६, ४.

विश्व(श्वान्-श्व)वदामिन्- श्री शंभ ३७८.

विश्वम्, न्वा^४- पाठ ३, १२६; -श्वान् वाथो ३, २, २१, २^१; वैताथो ३, २, २-न्वा: वप्रा ३, २, २५^१.

वैश्वन्त- पा ४, ४, ११२.
वेगस्- > वेगो-भग- > श्री- पा ४, ४, १३२.

वेगोभग्य- पा ४, ४, १३१; १३२.

वेगम्- पाग ४, २, ८०^४; ४, १२^१; -श्व कौष्ट ३, ८, १; शोष्ट ३, १२, १; माष्ट २, ११, ७; अष्ट; -श्वमन: शोष्ट ३, ३, १; ४, २, १८; अशा २२, ३; -श्वमि माष्ट २, १२, ११; अष्ट ७०^१, २, ३; ७३, १५, ५; वाथ २७६: ५; -श्वमसु वप्र ३९, १, २; ७३, १८, १.

वैश्विक- पा ४, ४, १२.

वैश्वीय- पा ४, २, ८०.

वेगम- पा ४, २, ८०.

वेगम-द्वार- रे अष्ट ६, २, १.

वेगम-प्राकार- रे अष्ट ७०^१, ६, १०.

विश्व- विश्व (वप्रा.) द.

२विश्व- (> विश्व)

३विश्व- (वैश्व- पा.) पाग ४, १, १२३.

विश्व-विश्व, विश्वसत आथो ५, १२, १; २१, ७, ४, २; शोथो ३, २२; ३८, ८, ११०; वैताथो ३३, १८; ४०, ११; या ७, १२; अश्वान् तैत्रा ३६, ६.

विश्व-विश्व(हिंसायाम्), विश्वद्वयु: वाथो ३, ४, ४, १५^१.

विश्वस्थूल- पाठना ३, १३.

विश्वसे अष्ट ४०, ६, १४.
विश्व-शङ्कट- पा ५, २, २८; पाग ४, १, ४५.

विश्व-शरी- पा ४, १, ४५.

विश्व-शङ्का^१- श्व मीत् ५, ४, ८.

विश्व-शङ्क, विश्वान्तवै वाथो २, २१, ५.

विश्व-शाय माथो ३, १, ३, ४; वाथो ३, २, ५.

विश्व-श्व- > श्व-श्व- श्वान् मीत् ८, १, ३७.

विश्व-श्वेय- (> श्व-श्व- पा.) विश्व- देव- द्वि. द.

विश्व-श्वम्, विश्वान्पति अष्ट ६०, १, ५^१.

विश्व-श्वम्- पाग ४, १, ११०.

विश्व-श्वान्- पा ४, १, ११०; -श्व अष्ट ४३, ४, १५; -ना: वीथो ४३: १३; -नाय आश्रिष्ट ३, २, २८; वीष्ट ३, ६, ६; माष्ट ३, ११: १; द्विष्ट २, २०, १
विश्व-श्वान्पति(न-श्व)नैताथि- सिष्टु पाठा ४, ३, १०४.

३-विश्व-श्व- १-विश्व-श्व- विश्व-श्वि द.

विश्व(श्व-श्व)श्वान्- श्वान् शंभ ३, १४: ५

विश्व-श्वान् (हिंसायाम्), विश्वसति माथो ३, ८, ३, १५; विश्वसत गोष्ट ३, १०, ३०^१; विश्वसत वाथो ३, १६: ३; विश्वसत आपथो ५, ११, ४; २०, १९, ६; वीथो ३, ५, ३०: २४; माथो,

a) विश्व- इति भाष्या. प्रथु. । b) वस. । c) वैष १ विश्वान्पति समावेशः द. । d) माग. । e) विश्व- इति पाठा. । f) वैष १ द. । g) पाथे. वैष १ विश्वान्पति द्वि. द. । h) = गमिका- । i) = कर्म- । j) श्व- मवीयम् उक्त् प्र. । k) = विश्व- (वैश्व. पाठा = वल-). अश्वान् प्र. (पाठ ४, १८६) । l) श्व- । m) श्व- । n) श्व- पागम. । o) पृ १८०८ h) वनि. संवत्सरादिदोः द. । p) कप्र. मै ३, ६, ११ दिव्युः इति पाथे. । q) श्वान्. । r) = श्व- । s) विश्व- इति पाठा. । t) = गोपि-विश्व- ।

विशसेत् द्राघ ३, ४, ११.
 विशस्यन् वीथी २०, २८: ४.
 विशसिष्वन्नि वाधूथी ३, १४:
 १७; विशसिष्वन्नि शीथी १५,
 २१, १; विशसिष्वन्नि वाधूथी
 ३, १४: १३; ११; विशसिष्वामि
 शीथी १५, २१, १.

वि-शस्- -तस्य शीथी ८, २१, ११.
 वैशस- -सम् सु २५, ६.
 वि-शस- -सन्तम् कौस् ६४, १०.
 वि-शसन्- -नः वीथी २४, ७: ६;
 -मम् आपथं १, १७, १०१;
 -नस्य वाधूथी ३, १४: १; -ने
 माथी ७, ११, १७; -नेन माथी
 ५, २, १०, २४; त्रिषा २६, ७.

वि-शसि- -त्ता निष ५२, ७४;
 -तारम् वाधूथी ३, १४: २;
 ६; १०.
 वैशस- -पावा ४, ४, ४५.

वि-शस- -स्तः ऋष ७२, १६, ४.
 वि-शसि- (> वैशस्य- पा.) पाग
 ५, १, १२४.

वि-शस- -पा ७, २, ३४.
 वि-शस- -कौस् ४५, २.
 वि-शस- -स्यम् वृदे ४, ३०.

विशसि- (> वैशस्य- पा.) पाग ५,
 १, १२४.

श्वि-शाख, खा- -नृषः आपथी १९,
 १६, १५; वीथी १७, ३२: ११,
 २०, २५: १०; हिथी २२, १,
 १२; आमिष्ट १, ३, १: ११.
 -स्यम् आपथी १९, १६, १५,
 हिथी २२, १, १२; -रास्य दाथी

२, ३, १२; लाथी १, ७, १०;
 -सनि माथी १, १, १, ३४;
 थाथी १, २, १, १६; गोष्ट १, ५,
 १७; -स्यम् माथी ६, ६, २६;
 वीथी ४, १: ३; ७: १८; पाष्ट
 ५१, ११; -रायाम् वीथी ५,
 १७: ५; २१, ६: ५; -रे दाथी
 ८, ५, ३२; आपथी ११, १०, ४;
 वीथी ६, २७: ११; वैथी १५,
 ११: २; हिथी ७, ७, १०; दाथी
 २, ३, ७; लाथी १, ७, ७;
 -रेषु आपथी १, ३, ११; हिथी
 १, २, ३०.
 विशाती- -स्यम् काथी १३,
 ३, १६; -स्यो थाथी १७, १,
 १५; १०, ६; वीथी १७, ३१:
 ५; २५: ३; ३६: ६.

विशाख-दासन्- -मानि आपथी
 १५, ५, २०; ६, १२; १७; १२,
 ७; माथी.

विशाख-वृष- -यः शीथी १६, ९,
 २५; १४, ११; १५, १७; वैताथी
 ३७, ७, -ने वाथी ३, ४, ५, १३.
 विशाखयूष(व-ख)वृष- -रायः
 वैताथी ३७, ६.

विशाख-दारा(र-ख)इन्द्रगन्धा-ष्टकि-
 पण्यं (शी-म)व्याण्ड- -ण्डा-
 काथी २५, ७, १७.

विशाखा(रा-अ)विशाखा-
 -स्याम् काथी ६, ५, ७.

विशाखा-शाखा- -स्याम् द्राघ
 ३, ४, १०.
 विशा(ख->)विशा- -का ऋष १,

८, १८.
 श्विशाख, खा- -सम् आमिष्ट २,
 ६, ३: २६; शंष ११६: २५;
 वीष २, ५, २२; -त्वा वीष्ट २,
 १, ११; -राय स्य २०, ४,
 २१; -रेन अय २०, २, १.

श्विशाख, खा- -स्योः माथी २,
 १, १०; आपथी ५, ३, १४;
 वीथी १७, ३६: १७; २१,
 १५: ३; माथी; -सस्य थाथी
 २, २, २, १४; -सा वेज्यो
 ३६; -स्याम् आपथी १७,
 ६, ६; वीथी १०, ४६: १८;
 २८, ४: ९; वैथी १९, ५: ३३;
 हिथी १२, १, २०; शीथ;
 -स्यम् ऋषा ३, ४; -स्याम्
 ऋष १, ७, ६: १०, ३; -स्याम् विष
 ७८, २१; -रे हिथी ३, २, ४;
 अय १, १, ३; २, १; ३, १४;
 -रे ऋषा ३, ४.

श्वैशाख-> वैशाखी- -रौ
 विष ९०, १०; -स्याः वीथी २,
 १२: ११; २८, ३: ३; वैताथी
 ३६, ११; हिषि १३: ३; वीष ७५,
 २; -स्यम् आपथी २०, १, ५;
 हिथी १४, १, ५; शीथ १, १,
 ६; ऋष १८, १५, १; वाष्ट
 २८, १८; विष ८७, १.

श्वैशाख-> ऋष-
 अवेष्ट- -ष्टे लाथी १०, ५, १८.
 वैशाख-शुक्-
 वृषोषा- -स्यम् विष ९०, १७.
 वैशाखी शुक्- -स्यस्य

a) अर्थः !। b) = हिता-। <विनास- इति शब्द-। c) उप, माकार्ये प्र.। d) विष. (सू-
 षडिन्, इन्द्र-शान- वातापनी- प्रष्ट), वाप.। वत. (इ. वा। ते २, १, ९, ३)। e) = स्युष्-। f) दिशन्तम् ?
 (इ. वत. काथी ८, ५, १२)। g) ऋष.। h) उप, विशाखयूषे <> विशाखयूषे नि पाथे.। i) उप.
 = एवशाखा- (इ. Old)। j) = देवता-विशेष-। k) = मयदा-विशेष-। लो १ इ.। l) = नक्षत्रेष्ट-।
 m) = वीर्षनासी-। n) विष. (वशाकार-). पञ्चमीवः मन् प्र. (इ. शब्. शब्.)। o) = मात-विशेष-।

वाधौ २४,७,१.
 ४विशाख- पा ४,३,३४.
 विशारत्ता(सा-२भा)घ- से कप्र ३,
 ६, १०.
 विशारत्ता-यु(त>)ता- ता विष
 २०,१०.
 ५विशा(ख>)खा- > ३वैशाख-
 पा ५,१,११०.
 विशात- (>वैशाख- पा.) पाग ५,
 १,१२४.
 विशातय वि/शद द.
 १विशाय- (>वैशाख- पा.)
 पाग ५,१,१२४.
 २विशाय-वि-शापिन्-वि/शो द.
 विशारद^३- पा ५, १,१२३^३; -दाः
 अप ७०,३,१.
 वैशारत- पा ५,१,१२३.
 विशारद-ता- ०द-ख- ०दिमन्-
 पा ५,१,१२३.
 विशारक- -कः बौधौ २४,२५ : १.
 ३विशाल,ला^३- पाठ १, ११८;
 पा ५,१,२८; पाग २, ४, ३१;
 ४,१,४५; ५, १,१२४; -लः
 आधौ ११, ३, ८^३; काधौ २४,
 २, १६; निम् ९, १२ : २६;
 -लम् शुभा ५, २०^३; -लया
 आश्रित ३, २, ५ : ८^३; -ला
 विष ९९, ५; नाशि १, २, ९^३.
 विशाली- पा ४, १, ४५.
 वैशाख- पा ५, १, १२४.
 विशाल-मूल^३- -कः अप २४,३,४;
 -ले अप २४,५, २.

विशाल-यूप^३- -यम् आपधौ २०,
 २३, ७; बौधौ १५, १४ : ५;
 ३७ : १४; -वे आपधौ २०,
 २२, १४; २३, १^३; द्विधौ १४,
 ५, ११^३.
 विशाला (ल-गच>)क्षी^३- -क्षि
 विष १, ३१.
 २विशाल,ला^३- पाग ४,१,११०;
 २, ८०^३; ९०; -ल्लाय कौट
 ४,४,९; शांष्ट ४, १८, ३.
 वैशालकि^३- -किः बौध ३, १०,
 ६.
 वैशालायन- पा ४, १, ११०.
 वैशालीय- पा ४, २, ८०.
 १वैशालेय^३- -यः आपधं २,
 १७, ९; -यः बौधौ १७, १८ :
 ३; आपधं २, १७, ११; -वाय
 बौध ४, ४, ९; शांष्ट ४, १८, ३;
 भाय १, ८ : २; कौट ५६, १३.
 विशाल-दत्त-, विशालिक-,
 ०लिय, ०लिल- पा ५, ३, ८४.
 विशालीय- पा ४, २, ९०.
 विशालाद्य^३- -द्याः बौधौप्र ४९ : १.
 वि/शास् (हिसायाम्), विशासत
 बौधौ १५, ३० : २९.
 विशासित काधौ ६, ७, १; २०,
 ७, ६; आपधौ ७, १४, १३;
 २२, ५; २०, १८, ९; बौधौ;
 १विशासि बौधौ ४, ८ : २; वैधौ
 १०, १७ : ४.
 वि-शास्- -स्ता बौधौ १७, १९ :
 ६; -स्तारम् वाधौ १५, २१, १.

वि-शास् वैधौ १५, २४ : ८.
 वि-शिसासिपत्^३- -पत् वाधौ
 १५, २५, १.
 वि/शास् (अनुक्ति), विशासि
 भागधौ १४, ३४, ४; २१, ५
 १५; बौधौ ६, १७ : २३; ३४ :
 १; द्विधौ १६, ३, १.
 वि-शासन- -मेन बौधौ २६, १२ :
 १९.
 विशिका^३- (> ३वैतिक- पा.) पाग
 ४, ४, ६२^३.
 वि-शि(सा>)ल^३- पाग २, १, ५९;
 -साः कप्र १, १, ४; -साः अप
 ५२, २, ५; भाय १, २८ : ३१.
 वि-शिखर^३- -रुपे अप ६५, १, ९.
 विशिखा^३- (> वैशख- पा.) पाग
 ४, ४, ६२.
 विशिप- पाठ ३, १४५; पाग २, १,
 ५९^३.
 विशिख- २विश- द.
 विशिशसिपत्- वि/शास् द.
 वि-शिख- > ०क्षि(त्वा>)शर्णा-
 -श्र्याताम् वाध १४ : ६.
 वि/शिप्, विशिषि वैधौ १३, ५ :
 ५; १४, १४ : १४; १विशिष्यन्ति
 बौधौ ८, २१ : ११.
 विशिष्यते काठ ४२ : १२;
 अप २, १, ३; ३०, ३, २; वाध,
 विशिष्यन्ते पावा १, १, ७०.
 विशेषपेव् अप १ : ४२.
 वि-शिष्ट, छा- पाग २, १, ५९^३; -ष्टः
 वाध २६, ९; आपध २, २६

a) विप. > नाप.। b) ह. पागम.। c) वैप १ द.। d) विशेषः टि. द.।
 e) = वृद्धप-विशेष-। f) = छन्दो-विशेष-। g) = छुरिक-। h) = मूर्च्छना-विशेष-। i) वत.। j) दृष्ट.
 = १वि-शास- (त. ०. [आपधौ २०, २२, १४])। k) पागे. दृ २२५५ टि. द.। l) पावा. पाठः। m) अप.।
 n) अर्थः ?। o) अपत्ये इन् प्र. अकद्व न् यत्नं. (पावा ४, १, ९७)। p) सपा. एता ७, १७ विशिशसिपत्
 इति पागे.। q) अर्थः न्यु. च ?। = परदृष्टवाद्युपवेश- इति पागम.। r) विशिका- इति पाठः। s) ह. पाठः।
 विशिष्ट- इति आस्ता. प्रष्ट., विशिप- इति पागम.। t) पागे. वैप १ विशिश्रियाणाम् टि. द.।

५; २३, २; विष; -एम् वैष २,
 ५, ५; मीत् ८, ३, २१; -डा
 पावा १, १, ४५; -एम् अपघ
 २, २३, ९; द्विष २, ५, १६२;
 -एणाम् मीत् ४, २, ३९; ११,
 १, ६८; -एणि अप्रा १, ३, ६.
 परिशिष्ट- -ए: पावा ८, १, ३०.
 विशिष्ट-कारण- -णत् मीत्
 ६, ४, ३९.
 विशिष्ट-ग्रहण- -णम् पावा ३,
 ४, ७७; ७, ३, ५०.
 विशिष्ट-ना- -तया कम् ३, ८,
 १४.
 विशिष्ट-त्व- -त्वात् मीत् ४,
 ४, २; १०, ७, ५९; ६५.
 विशिष्ट-देश-जाति-कुल-स्था-
 (प-आ)युग्-सुत-वृत्त-वित्त-
 सुप-नेषत्- -घस: गौध ११,
 ३१.
 विशिष्ट-वर्म- -सर्णाम् द्विषी
 ३, ८, ३२.
 विशिष्ट-निर्देश- -शात् पावा १,
 १, ६१.
 विशिष्ट-क्षिप्त- -ऋ: पा २, ४, ७.
 विशिष्टा (ट-अ) विशिष्टा (ट-अ)
 द्वि- -धिम्व वैध्री १०, २, ७.
 वि-सिष्य वीध्री १०, ५६; १४; ११.
 २; ३०xx; बाधुध्री.
 विशेष- पाग २, १, ५९; ५, ४,
 ३४; -प: काध्री १, २, ५५
 ५, ३, २७; २२, ५, १; ६, १५,
 आपध्री; -पम् माध्री २, २, ५,
 २६; वध २, ६, ६; श्रधा १८,
 ६२; -परय पावा १, ३, ६८;
 २, ४, ३५; मीत् २, ३, १५;
 २६; ४, ४, ६; १०, ३, ५५; ११.

२, १८; -पा: धाध्री १२, १०,
 ३; वीध्री २७, ११; १२; २९,
 ८; २१; शौच १, १८; -पाण्याम्
 मीत् ११, १, १९; -पात् वप
 ३६, २४, २; आपघ २, २५, १;
 विष; -पात् धाध्री १०, १०,
 १; वीध्री २७, ११; १४; २८,
 ४; २; आपघ ४, १७; वीध्र;
 -ये वैध्री २०, १; ६; वैध्र ६,
 १; १३; श्रे २, १०९; पावा
 ४, १, ५२; मीत् १०, ८, १७;
 -वेण धामिण् १, १, १; ५;
 भाण् १, १; १२; द्विण् १, १, ५;
 अण; -पेण पावा ४, १, ६२.
 विशेषिका- पा ५, ४, ३४;
 -कम् आपध्री ४, ११, २; १२,
 २५, १४; वैध्री २९, ६; ६५;
 द्विध्री ६, ३, २; मीत् ९, ४,
 १६.
 विशेषिका(क-मा)म्भान-
 -नात् मीत् १२, ९, ३१.
 विशेष-वृत्- -वृत् श्रधा १२,
 २५.
 विशेष-चोदना- -ना धाध्री २,
 ७, १.
 विशेष-व- -व: नाशि १, ७, ९.
 विशेष-नाम्(ः) धामिण् २, ४,
 ८; २१; ५, १; ५xx; वैध्र.
 विशेष-दर्शन- -नात् मीत् २, २,
 ४.
 विशेष-निर्देश- -शात् मीत् १०,
 ४, २८.
 विशेष-भाज- > धाम्-व-
 -त्वात् पावा २, १, ५५.
 विशेष-वृत्त- -णम् मीत् ८,
 १, १.

विशेष-वचन- -नम् मीत् १०,
 ६, ५७; -नात् काध्री २७; १;
 पावा ७, ३, ६६; -ने पा ८, १,
 ७४; मीत् १०, ६, ५०.
 विशेष-वाचक- -त्वात् पावा
 १, २, ६८.
 विशेष-धादिन्- -धिन: श्रे २,
 ११०.
 विशेष-शिष्ट- -एम् मीत् १०,
 ८, १६.
 विशेष-ध्रुवि- -ते: निण् २, १३;
 ३६.
 विशेष-संयोग- -नात् मीत् ११,
 ३, २१.
 विशेष-संनिपात- -ते श्रधा १७,
 २६.
 विशेष(प-अ)ग्रहण- -णत्
 मीत् ११, १, ५५; -ये मीत् ११,
 ४, ५४.
 विशेष(प-अ)नविदेश- -त:
 पावा १, १, ५६; ६, ३, ६७.
 विशेष(प-अ)नभिधान- -नम्
 पावा २, २, २४.
 विशेष(प-अ)धे- > र्धिन-
 -र्धिनम् माशि १५, ९; -धी
 वैध्र ५, ९; ७.
 विशेष(प-अ)धे- > र्धिन-
 -र्धिनम् माशि १५, ९; -धी
 वैध्र ५, ९; ७.
 विशेष(प-अ)धे- > र्धिन-
 -र्धिनम् माशि १५, ९; -धी
 वैध्र ५, ९; ७.
 विशेष(प-अ)संस्मरण- -न्या
 पावा ४, १, ६२; -वात् पावा ३,
 १, २२.
 विशेष(प-उ)पदेश- -नात्
 वध्री ६, ७, १७.
 विशेष- -णम् धर्ष १; ३८; ४७;
 अया १, १, २८; पा २, १, ५७;
 -नात् पा १, २, ५२.

a) एणाम् इति जीति. b) वध. > इण. c) वध. d) वध. > धन. e) वध. उप. भावे

विशेषण-त्व-स्वात् पावा ८,
१,१७; २,७.
विशेषण-विशेष्य-स्त्वयोः
पावा १,१,७२; २,१,५७.
विशेषणा(ण-ञ)र्धे-धम् पावा
२,४,४९; ३,१,४३; ५,४,५७.
विशेष्य-स्त्वयस पावा २, ३,
५०; -त्येण वा २,१,५७.
विशेष्य-स्त्व-स्वात् पावा २, १,
५७.
विशेष्य-लिङ्ग-वा- -ना पावा
२,१,३६.

विशिष्ट > विशिष्ट- -ये कश्चि
४, ३, ७^१; कौत् ८,१०; मीम्
२,३,१६; ७,३,२९x.
विशय-न्(त् >)शी- -यः वा
२,१.

विशयिन्- > -यिन्-स्वात्
आपञ्च ६, २; १४; ११,४; १३,
६; १४,१०; द्विष्ट २, २८; ४३;
४,५; ४९.

विशय,या- -याः आपञ्च १०,
३; ११,१०; २०,१; द्विष्ट ३,
४०; ४,१३; ६, ३६; -याम्
आपञ्च १७, ८, ५; वैधौ १९,
५; ४९; -ये वैधौ ५,२; २१;
६; १९; आपञ्च १६,१४; १७,
३; २०, ६; वैधौ.

विशय- (स्व >)स्था- -स्थाः
वैधौ ६; ६.

विशयिन्- पाग ३,१,१३४.
विशय- पा ३,३,३९.

विशयिन्- पाग ३,१,१३४^१.

विशीत > वैशीति > -त्वाव-

पा.) पाग २,४,६१.
विशीर्ण- -ध्वत्, -धमाणा- विश्व
दं.

विशी(र्वन् >)र्णी- -र्णीम् वीधौ
१२,१०; ५१^१.

विश्वि- -यः द्विष्ट २,५,१९२^१.

विश्वि, विश्विपति आसिष्ट ३, १२,
१; ६; अप २३, १३, २;
वाच २६,५; वीध १,५,१२६;
विश्व २८, ५०; सुष १४;
विश्विष्मि वाच २१, १२;
शेष ४४१; ४५४; विश्व २३,
४०.

विश्विभते वीध ४,२,१४.

विश्विद्, द्वा- -दः विश्व ११, ८;
-दम् विश्व १३, ५, वा १४,
३; -द्वान् विश्व ५४, ३२;
-द्वानि अप ५८^१, १, ३; -द्वानु
अप ६५, १, २.

विश्विद्-भाव- -वे वाच २७,
१५.

विश्विद्-मूर्ति- -तिः आ २४,
६, १.

विश्विद्(द्-ञ्)मन्- -स्मा अप
१७, १, ५; ७०, ८, ४; ९, २;
वीध ४, ७, ४.

विश्वि- -द्वये अप ४८, ३, १;
वाच २७५; ६; मैम ५; -दिः
शेष ३५६.

विश्विद्(दि-ञ)र्धे- -धम्
आसिष्ट २,३,३; २.

विश्विष्म- -यतः वा १४, ३.

विश्विष्म- -नम् आसिष्ट २, ७,
७; ५; अप ६७, ८, ६; विश्व

४१, ५^१; ५०, ४९.
विश्विष्म- -व्वाणि
अप ६८, १, १५.

विश्विष्म(त् >)वा- -नम् वैधौ
१, १; १५.

विश्विष्म, विश्विष्मते वीध ७१;
विश्विष्मते अप ५७, २, ७; ७१,
१५, ३; विश्विष्मते वीध १, ९,
१३; २, ८, ३; शेष १, १५, ९;
२, १३, ३; अप ७०^१, १०, २.
विश्विष्म, वा- -वां अप २३, ३, ५;
२६, २, ५; ८; -णं लिट् ६,
१२; ३५.

विश्विष्म-स्त्वा- -स्त्वापात्र
आसिष्ट २, ६, ७; ३६; शेष
१५७.

विश्विष्म- -यता अप ५८^१, २, ५.
विश्विष्म(त् >)वा- -वा अप
७०^१, ११, १२.

विश्विष्म- -यण- प्रम्. विश्विष्म दं.

विश्विष्म- -दः साम १, ५९^१,
-नम् शोषी १५, १७, १; आसिष्ट
३, ४, ४; ९; वीध ३, ४, १४;
१५.

विश्विष्म(< शोक्-), विश्विष्म
अप २, १०, ३३; वृद्धे ७, ३६.

विश्विष्मिनी- , विश्विष्मिनी-
विश्विष्म दं.

विश्विष्मि- विश्विष्म दं.

विश्विष्मि- विश्विष्म दं.

विश्विष्मि- -नः वा २, ३.
विश्विष्मि(द्-ञ्)र्धे- -धम् वा
२, ३४.

विश्विष्म- विश्विष्म दं.

a) तु. पाणि. । सर्वलिङ्गता- इति मारुता. प्रम्. । b) = सं-भाव- । c) विपये इति पाठः । वनि.
शोचः (इ. वीधं). । d) माप. (गन्ध-भाव-) । कर्तारि कुर । e) = दृक्-विशेष- । तद्वति वृत्तिः । f) वृद्धि
इति पाठः । g) अप. । h) वैध २, ३६. दं. । i) प्रास. । j) अप. आपण २, २५, १२ शुचयः इति पाठे. ।
k) वय. । l) उप. < > श्विष्म (शोक्). । m) अर्धः व्यु. च । n) विश्व. । उप. कर्तारि कुर ।

विश्व-पति-, श्री- १-२ विश्य-
 √विश्व द
 वि/ध्रस् > वि श्रानित- जे गोए १,
 ४,२०, द्राए १,५,३२
 १वि/ध्रस्, वि- श्रयाय श्रया ९,
 ४०, वि(धयाय) दिए १, ९,
 १०.
 वि/ध्रस्, विश्रयन्ताम् जेए १,१५
 १
 विद्यामयन्ति कीए ३, ८, ३,
 चाए ४,६,७
 वि-ध्रम- म बीति ७६
 वि/ध्रम् विश्रम्भयेयु काशी ३,१०,
 १६
 विश्रयण^{१००}- पाए ४,१,११०
 वैश्रयण^{१००}- वा ४, १, ११२, -ण
 काशी १०,७, ६१, काशी १६
 २,१६१, माए २, १४, २९१,
 श्रप ६७,५,२, ३, माशि ४४१,
 -णम् बीए १,७,३, चाए १,११,
 ७, चाए २१,३, सध २१६, ३४,
 -णाय आशि १, २, १०,
 चाए ५४, १०, बीए २, ८, २०,
 ३,९,३, भाए
 वैश्रयण यश- ल बीशी १९
 १० ५८, ६०१
 १वि श्रयस्- वसे काशी १९, ५,
 ३, बाशी ३ २, ७, ३१, वेताशी

३०,१८
 २वि श्रयस्^{१००} > वैश्रयण- सम् चय
 ११६ ३३
 वि-श्राय- वि/ध्रु द
 १वि/श्रि, विश्रयति काए २५, २२,^१
 विश्रयन्ताम् वा ४,१८, ८, १०,
 विश्रयत्य बीशी १८, १६ १३,
 विश्रय बीशी १८, १६ ११
 वि श्रयिन्- वा ३ २,१५७
 वि-श्रि(त>)श- -ता इयाय ६,
 ११
 विधि^{१०}- पाठमो २,१,२२८, पाए २,
 ४,६३, ४, १, १०३^६, ११६^६.
 वैश्रय- वा ४,१,१२३,१२६
 वि/ध्रु, विश्रुयम् बीए २,५,४१^१
 विश्राय- वा ३,३,२५
 विश्रुत- पाए २,१, ५६, -ल अय
 ३१, १०, ५^१, -ल अय ३१,
 ३, ५, बीश ४,८,४.
 १वि श्रुति^{१०} - ०ति बीशी ६६,
 २६ १४, माशि १८
 वि/श्रिष्, विश्रयवेए माशि ४ १०
 वि श्रिष्- -लम् वाशि १, २६,
 माशि १ ३,१२^१
 वि-श्रुलोक^{१०} - ०क माशी २, ५, ५,
 ११^१
 विश्व, दत्ता^{१०} - पाठ १ १५१, पाए १
 १, २७, २, ४ ३१, -रव^१ वि

२, २ ७१, -०२३ चाए ३,
 ५ १, -१२३ काशी ७, ६,
 ६, काशी १०, ३, ११, १८, ४,
 ७, ५, ७, काशी, -१२३ काशी
 १, ९, ५५५, ८, ९, ७^१५५,
 काशी ३, १८, १४५५, १०, ११,
 ९^१५५, कापधा ४, ४, ४५५, १६,
 २९, २^१५५, बीशी, माशी १, ४,
 ३, १^१, काशी १, १, ४, ९^१५५,
 दिशी ११, ८, ४^१५५, कापम^०
 १, ८, ८^०, ११, १०, चाए २,
 ४ १४^०, पाए ३, ३, ६^०,
 काशि ३ ५, १: १४^०, मय २,
 २, ११४, बीम् ५, १^०, २^०,
 मा ४८, ६६^०, सुदे २, २९,
 १३४५५, विप ३, १^०, वा ६,
 २, १०६४, -१२३ काशी
 ४, ११, ६, बीशी १, १३ २१^०,
 वेताशी, -१२३ काशी १, ४,
 ५, कापशी १४, २७, ७, बीशी
 ३, २७ १४५५, माशी, -श्रय
 १ काशी ६ ५, १८, ८, २, २१^०,
 १२, २०, काशी, माशी १, ६,
 ४, २१^०, काशी १, ५, ५,
 ७^०, कापम २, ११, २^०, -१२३
 काशी ४, ३, २, ९, ५, १०, ६,
 ९, काशी, माए २, १७, १^०, सुदे
 ५, १४४^०५५, वा ६, १३४^०,

d) सधा द्राशी १०, २, १३ विश्रयणेयु इति पाठः । e) व्यप । f) वैप १६ । g) विप
 (च-ध्र ६७, ५, ०१), व्यप । सार्वदेवताशये व्यप प्र । e) = साम विरोध (उ माश १२, ८, २, २६ श्रय
 च, वैप श्रय विप इति) । f) पाठे वैप १ विश्रयति श्र १०, ८५ १७ टि द । g) उ पायम । विश्रि-
 दति माएटा प्रप्र । h) वृ ८८२ ज द । i) विप (काशि) । j) पाठे वैप १ विश्रयति टि द । k) विपे
 (क १, १८६, ०) इत्यस्यान्त्याखरयोप (उ पाठ ६ १, ९) । l) सधा लौ ६, ३६, २ विश्वा इति पाठे । m) पाठे
 वैप १, १५९२ ० द । n) पाठे वैप १ सुरेता ते १ ९, ४, ४ टि द । o) पाठे वैप १ विश्रम् श्र १, १३, ३
 टि द । p) पाठे वैप १ विश्रयन्ताम् १, १, ११, १ टि द । q) सधा ते ५, ७, ०, ३ विश्रवा
 १) = वृ- । r) पाठे वैप १ विश्रयन्ताम् १, १, ११, १ टि द । s) सधा ते ५, ७, ०, ३ विश्रवा
 इति पाठे । t) सधा चाए ३, १३, ५ सार्वदेव इति पाठे । u) पाठे वैप १, १६४८ b द । w) व्यप,
 (२६४५५) । x) पाठे वैप १, १६४८ ० द ।

-भाषाशास्त्री १, २६; १०, १८;
 ४, ७, ४; ७, २, ३xx; शांती; मासि
 १३, ८१; १३; -पञ्चात् काशी
 २५, ९, १३; आपथी ७, २१, ६;
 भाषी; -पञ्चान् भाषी ४, ७,
 ४; ७, ४, ७; शांती ७, १०, १४;
 १५, २२, ११; आपथी; -शानाम्
 मासि १३, ८१; -शानि आथी
 ४, ४, २१; शांती १६, १,
 २११; पञ्चापथी ३, २०, १; ६,
 २३, १xx; वीथी; माथी ५, २,
 १५, २११; -शामि: पञ्चाथी ४,
 १५, ३; ७, ११, २१; ९, ११,
 १५; शांती; आपथी १४, २९,
 ११०; -धाम्य: पञ्चाथी २, ४,
 ३२, ९, ७, १२; २६, ३, ७; वीथी;
 -पञ्चापथी वीथी ८, ५; ८; शांथ
 ३, ५, २; कैप १, ४; ९; या १२,
 १५०; -पञ्चासाम् काथी ६,
 ७, ६; आपथी ११, १२, २;
 वीथी; -पञ्चासु शांती १०, ६,
 ९; १८, १०, ९; आपथी १,
 २२, ३; १६, ३०, १; माथी;
 -थे काथी २, ९, १३; १४, ५;
 १६, १०xx; शांती; आपथी
 २१, २२, ४०; अथ २०, १२०;
 निप ५, ६१; या ४, २३xx;
 ६, १६०xx; १२, ४२०;
 -पञ्चो वाथी १, ४, ९; ३, ७,
 १०; शांती १, ६, १३; २,

३, ८; ४, १०, ३xx; आपथी;
 -पञ्चन आपथी ४, १५, १;
 शांती ४, २१, १; द्विथी ६, ४,
 १८; -पञ्चेमि: काथी २, १७,
 ३; ५, १०, १०; ७, १०, ५;
 शांती; आपथी ४, १२, ३;
 शांती ४, १८, १; द्विथी ६,
 १, ११; शुभ ३, १६५;
 -पञ्चेम्य: आथी ६, ११, १६;
 शांती ९, २७, १xx; काथी २,
 १, १८xx; आपथी ३, १८, ४;
 ४, ४, ४xx; वीथी; -पञ्चेपाम्
 काथी ८, ९, २१; १४, ५, २५;
 आपथी ४, १०, १; ७, ९, २६xx;
 काठथी; द्विथी ४, २, ३४;
 -पञ्चेपु शांती १०, ७, ७;
 १४, ३३, १८; आपथी ६,
 ९, १; १६, ३०, १; वीथी;
 -पञ्चो: काथी ४, २, ३; आपथी
 ४, ५, ५; वीथी.

विश्व-कथा (> वैश्वकथिक- पा.)
 पाग ४, ४, १०२.
 विश्व-कर्मण- -मंण: आपथी १६,
 २९, २१; वीथी २७, १४; १४१;
 द्विथी ११, ८, ४१; शुभ २, ६;
 ३४१; -मंण वीथी २०, ३१;
 २१; -मंण्य माथ १, १३,
 १५१; -मंणि वण ७१, १७,
 ५; -पंणो काथी १६, ७, १,
 आपथी ९, १४, २; माथी २,

३, ७, ४; वीथ; -पंमंण् आथी
 २, १८, १९; ३, ८, १; शांती
 १६, १६, ३; काथी; -मंणि:
 वीथ १३९, ७; -मो आथी
 २, ११, ८१; १८, १८; ३, ८,
 ११; शांती १६, १६, २; काथी;
 आपथी १२, २३, ८१; वीथी
 ७, १४; १२१; ८, ४; ७१; ४xx;
 द्विथी ८, ७, २४१; वा ४८,
 १३७; अथ २, १०, ८१;
 बुदे १, १२३; २, ५००; ६,
 ५६०; साध २, ९३१; निप ५,
 ४१; 'वा १०, २५०;
 -मंण्य आपथी २१, २१, ८१;
 द्विथी १६, ७, ५१; पाथ ४, ८१;
 गोप; शंथ ११६; ३४; -मंणि
 द्विथी १, ३, १८१; -मंणो
 शांती १, ९, १११.
 वैश्वकर्मण- -ण: शांती ३,
 १५, १८; २०; १८, २१, १०;
 काथी ५, ७, ६; आपथी २१,
 २१, १३; वीथी १, ७, १, ७;
 वा १४, ३७; -ण्य आथी
 १२, ७, १३; काथी २५, २,
 १७; आपथी २१, २१, ८;
 २३, १२; वीथी ५, १०; ३०; १६,
 १८; ९; १२; माथी ८, १५,
 ३१; शांती; द्विथी १६, ७, ११;
 शुभ २, १०; ११; अथ २, ३५
 -ण्य शांती ६, ११, १; -ण:

a) पामे. वैप १ विश्वामि ते ५, ५, ९, २ टि. द. । b) = सपा. ते ४, ४, ३२, १ तेआद, १७, ११। ङ १,
 ९१, १७ प्रथ. द्व विश्वेभिः इति पामे. । c) पामे. वैप १, २३६९ ङ द. । d) ४ १२७६ ङ द. । e) पामे. वैप १,
 २४२० ङ द. । f) पामे. वैप १ विश्वदेवेभिः मा २, २२ टि. द. । g) पामे. वैप १, १६०२ ङ द. । h) वैप १
 द. । i) = अग्नि-विशेष- । j) = देव-विशेष- । k) पामे. वैप १ विश्वदेवेसु वी १, ३२, ४ टि. द. । l) = सत्यव-
 विशेष- (द. सतरुः टि. [वीथ ७, ८], अप ३२, १, २३ व) । m) पामे. वैप १ विश्वकर्मा ते ६, ४, १०, २ टि. द. ।
 n) = [देव-] लक्षण- । o) वा. ? । p) ये इति BN. शिपतं. भटकम्बरथ । q) = [विश्वकर्मादेव्य-] होम- ।
 r) = अग्निप्राण-विशेष- । s) ञ्याम् इति पाठः ? यनि. शोधः (द्व. वीथी ५, १० : ३०) । t) ञ्याम् इति
 पाठः ? यनि. शोधः (द्व. आपथी २१, २१, ८) । u) ञ्याम् इति पाठः ? यनि. शोधः ।

आपथी २०, १५, १२५; वीथी
 २४, ३०: ४; हिथी १४, ३,
 १८; -णानाम् वीथी १५,
 ३१: २०; -णानि^३ आपथी
 १३, ७, १७; १७, १४, १; वीथी
 ८, ६: १३xx; वैथी; -णे वृदे
 ७, ११७.

वैश्वकर्मणी- णी
 आथी १४, ८, ६; वीथी १७,
 ५७: २६; ६२: १४; झुम २,
 ११३^०; साध २, ९३९; -णी:
 झुम २, २८४^०; -णीम् प्रागिष्ट
 १, ५, १: ३९१^०; ३, २, १:
 १४^०; भाष्ट १, ५: २१; शुभ
 १, ५३३^०; ५३४^०.

वैश्वकर्मण-सोम- मान्
 वैताथी २९, २१.

वैश्वकर्मणा (सु-भा)
 दिष्ट^०- न्ययो: वीथी २३, १३:
 १५; -त्याभ्याम् वीथी १६,
 १८: ८: १३; -तौ^० वीथी २६,
 ८: ३; वाथी ३, २, ५, २२.

वैश्वकर्मणादिष्ट-
 मद्- नौ हिथी १६, ७, ९^०.

वैश्वकर्मणा(न-भा)न्त^०-
 न्गानाम् साथी १, ७, ५, ३०;
 ५, १, ४, ८.

वैश्वकर्मणिक- ऋम् निर
 ७, ३: २२^०.

विश्वकर्मानाण^०- ण्य: धप ३२.

१, २३^१; -णस्य धजम् ३.
 विश्व-गामिन्- निमौ वा १४, २३
 विश्ववृष्टि- -ष्टि: अणाय २, ३५.
 विश्व-सोम्य^०- ण्य: अण ३, २,
 १२.

विश्व-सर्वमि^०- णि: आपथी ६,
 ३०, १०; १६, ३५, ५; वीथी
 ३, १२: १०; साथी; वीष्ट १,
 २, ४८; जेष्ट १, २४: १०^१;
 -लो वीथी १४, २१: ३०;
 वैष्ट २, १०: ११.

विश्व-जन^०- पाग ४, ४, ९९;
 -नस्य आपथी ५, २, १: १८,
 २: ११, १०, ९; वीथी.

वैश्वजनीन- पा ४, ४, ९९.

विश्वजना(न-भा)दि- दीनाम्
 पावा ६, १, ७५.

विश्वजनीन- पा ५, १, ९;
 -नस्य साथी २२, १७, ११;
 -नस्य वीम् ३६, २५; नभ
 ७, ४५; धप २: ६७.

विश्व-जन्मन्^०- म्मन: अण १४,
 २५.

विश्व-जन्म, न्वा^०- न्यम् वा
 ११, १०^०; -न्या: आपथी
 २४, १३, ३; -न्याम् आपथी ३,
 ८, १.

विश्व-जिन्^०- णित् साथी ८, ४,
 ६: १३, ३१^१; ९, १, ६;
 १०, १, ७xx; साथी; आरथी

१६, ३०, १; वीथी ३, १३:
 १२^०; १८, ३१: ६^०; वैथी
 १८, २: ३९^०; हिथी ११,
 ८, ४^०; अण १७, १^०; वीम् ६,
 ४, ३३; ५, २५; -णंजित^०
 वीम् ९, ३; ५०, १३; अण;
 -जित: आपथी ८, ७, १: ११,
 ७, १६; १८; साथी; -जितम्
 आपथी ११, ७, १०; साथी १२,
 २७, ४; काथी २४, ३, २९;
 आपथी; वाथी ३, २, २९; ३३^०;

-जिता आपथी ९, १०, ८: ११,
 २; १२, ६, ३४; काथी; -जिति
 साथी १०, ८, २३; ११, १५
 १०; १२, ३, १२; २३; ६,
 ७xx; वीथी, झुम ४, १८४;
 -जिते साथी ६, ४, १०;
 साथी ९, १५, ३; १०, ११,
 ७xx; धप ४, ५, ८^०; अण २,
 ३, २१.

वैश्वजित^०- नानि साथी
 ९, ५, २१; निम् ६, ९: २३;
 ८, २: २१; -तै: निम् ८, २:
 ४४.

विश्वजिच्छि (<शि) ल्यम्-
 न्य: आपथी २, १०, ७; साथी २२,
 २, २१, आपथी २२, ४, ११;
 साथी ८, ४, १०^१; निम् ६, ५:
 २४; -ह्ये साथी १२, ८, १५;
 साथी ६, ४, ११^१; निम् ६,

a) नाप. (कर्म-विशेष- (वृ. हिथी ९, २, १८ मात्प्रम्)) । b) = शब्- । c) णि इति पाठः ।
 यदि. शोधः (वृ. भाग) । d) = प्रतिपाठ-अर्थ- । e) परस्परं पाठे । f) वल । g) णंजीम् इति
 पूर्वो. । h) = मन्त्रपण-विशेष- । i) ण्यम् इति B. शोधः (वृ. वीष्ट ७, ८ टि.) । वृ १७३ सत्य. गणा
 इति नेष्टम् । j) पाठः ? । पाठे. वैष्ट १ विश्ववृष्टि: ऋ १, ५१, ७ टि. B. । k) वैष्ट १ टि. । l) णी:
 इति पाठः ? यदि. शोधः (वृ. वीष्ट १, ३, ४८) । m) नाप. (पृष्ठ-द) । n) सवा. पे १८, ३१, ६ विश्वविम्
 इति पाठे. । o) सवा. पे १९, ४४, ८ सर्वविद् इति पाठे । p) विभजितम् इति पाठः ? यदि. शोधः (वृ. पूर्व
 रदात्म) । q) सवा. पे १९, ४४, ७ सर्वविदे इति पाठे. । r) विष्ट. (भाज्य-वृष्ट-प्रश्) । अण् प्र. (वा ४,
 ३, १२०) । s) ण्यः इति पाठः ? यदि. शोधः । t) न्ये इति पाठः ? यदि. शोधः ।

१: २१, -ल्येन शांती १२,
 ९,५, द्विषी १७,२,१८
 विश्वजित्-पक्ष- -क्ष काश्री
 २३,५,३०
 विद्वपत्रि परिवास- -सा
 काश्री २२,११,२७
 विश्वजित् प्रतिरप- -व छुस
 २,१-१९
 विश्वजिद्-अन्वयाय- पात्र
 लाश्री १०,४,४
 विश्वजिद् अमिजिद्- -जितो
 शांती १५, ११, १२, -जितौ
 शांती १३, २९, ३५, आपश्री
 २३, १३, ९, वीश्री २६, १६ ७,
 १५, द्विषी १८, ४, ४२^{३०}, ४३,
 निम् ६, ४ ५x५, -जिद्ग्याम्
 लाश्री ८, १, १९
 विश्वजिद्मिजिद् सनिपात-
 -२ निम् १०, ३: ३१
 विश्वजिद्-अभिजिद् मत्रप्रति-अ)
 होर्षान- -माणात् लाश्री ९,
 ११, १२
 विश्वजिद्-वेरता-> -त्य- -वम्
 अथ ६, १०७
 विश्वजिद् हादसाह- -व छुस
 २, १६ १७
 विश्वजिद् वत् मीम् १०, ६, २४
 विश्वजिद् बज्जम् काश्री २३ ५,
 ३६
 विश्वजित- -नेन निम् ९, १३.
 २०, -ने. काश्री ३, २, ३, ३२
 विश्व-जिति- -त्ये आपश्री १४, १९,

९
 विश्व-जु- -जुयम् शांती ८, २०,
 ११.
 विश्व-ज्योतिर- -ति काश्री २२,
 २, ८, आपश्री १७, २५, ७^४,
 माश्री १, ६, १, १९^{१०}, द्विषी ११,
 १, ३^६, ४^४, -तिप^४ काश्री
 १६, ४, ६, आपश्री १६, २१, २,
 १७, २५, ५, वीश्री, -तिपम्^६
 काश्री १७, ४, २३; ९, ३, १९,
 २२ आपश्री
 वैश्वज्योतिप- -यम् छुम् ३, १०^४
 ३३, ३५, छुम् २, १५^७
 वैश्वज्योतिप वासि- -वे
 निम् १०, २, ३०
 विश्वम्- -अक्षम् भाश्री ३, ६, ७,
 वापश्री ४, ५^४ १०
 विश्व तम् () काश्री २, १०, ४, ६,
 ३, ७, ७, ४, १२, २x५, शांती,
 आपश्री १६, १९ १^३, वीश्री १८,
 १६, १०^३, द्विषी ११, ६, ३, ३^६,
 द्राश्री ४, २, २, लाश्री २, २,
 ११.
 विश्वतप- -वन्तो माश्री ५
 १, ३, ७
 विश्वतत्- -व्युत्- -क्षु शांति
 ५, २, ६
 विश्वतो- -व्यम्
 काश्री १२ २६, ९, १८, १५, ५
 विश्वतो धा(रा)> - -वम्
 मा १३, ८^१
 विश्वतो मुख- -०स अथ ६६,

२, ६^१
 विश्वतो वीर- -व्यं गोष्ठ ३ ६,
 ११
 विश्व-म^१ शांती १७, १२, ५^१
 विश्व पा या ३, १६^१, छुम् ५,
 १०^१, पा ५ ३, १११
 विश्व द्वात- -त आपश्री २
 २०, ४, ९, ८, ३, शांती, -तम्
 माश्री ५, १, २, १७
 विश्व-दाभि- -ति^१ आपश्री १
 ६, ४, २, १, ३, वीश्री १ १०
 २०, माश्री २ १, ४, द्विषी १
 ६, ६१, ६ ४, ८
 विश्व-दानोम् लाश्री २, ५ ९, काश्री
 २५, १, १८, आपश्री, माश्री १
 २, ४, ५^३, वा ११, ४^४, वीश्री
 ४, २३
 विश्व दाव- -वत्प^१ आपश्री १३
 २४, १६, वीश्री ४, ११ ११,
 १४, १३ १८, द्विषी २ ६,
 २९, वीश्री २४, १६
 विश्व-दाम- -व्ये माश्री २, ५ ५
 १९^१
 विश्व-देव- -पाठ ४, २, ५^४, ५ १
 १३३^१, -पुत्रम् काश्री २, १६,
 ११, ४, ३, २, ११, ६, ७ ६, ६,
 शांती ९, २६, ३, १०, ३, १३,
 १६, १, २१, वीश्री २८, २
 ३१, -पुत्रम् आपश्री ३ ५, ९
 ५ १८, ५, -पुत्रम् वीश्री ७
 १२ ४५ माश्री २ ३, ६,
 १६, वीश्री २ ५, २७

a) वस । b) एता इति पाठ ३ यनि शोषः (द्रु उतर स्थलम्) । c) मलो वस । d) = विश्व
 जित्- । e) वैप १ द्र । f) = [राट्-र] पचाह- । g) = हृष्टका विशेष- । h) विप (कर्म) । i) = राम
 विशेष- । j) = यजुष् । k) रावा काठ ६८ १४ सञ्ज्ञे इति वामे । l) रावा शी ७, ६६, १ अहम्
 इति वामे । m) = विश्वत शब्द-वत् । न्यायवाक्य- । पूर विस्मयलोप कर्म । n) = विश्वपा । o) वामे वैप १
 लि ५ ४, ११ टि द्र । p) वामे वैप १ विश्वदानीम् काठ ३२, १४ टि द्र । q) वामे वैप १ विश्वदानीम्
 शी ३, ८, २ टि द्र । r) विश्वदेव- , वैश्वदेव- इति पाका । s) वैश्व इति पाठ ।

वैश्वदेव- पा ४, २, ५४^०,
 ५१, १३३^०, -य आधी ९, २, ६,
 शाभी २, ३, ७, ३, ११, ११, १२,
 ३, १४, ६, २, १०, ३, आधी,
 कौट ३, १०, १^०, शां २, १४,
 १^०, अम २, ८, ५४, ६९, वृदे २,
 १२५, ५, ११३, ७, ३६, ८,
 १११, ११६, उन्निस् ८ २३,
 -यम् आधी ५, १८, २, ५६,
 ६, ६, ७, ४, १२, ५, २३^०xx,
 शाभी ३ १३, ५^०xx, १४, ६,
 १^०, आधी ५, १, १५^०, २,
 २०^०, ११, १८^०xx, ९, ५ २१^०,
 १४, १^०, आधी ६, २२,
 १xx, २४, ३, ३०^०, शाभी,
 कौट ३, १०, ३५^०, शां २
 १७, ४^०, वृदे २, १३२, १३३,
 आज्यो ५, १, -वस्य आधी
 ५ १८, ५, ७, ६, ६, ८, १, १८,
 १०, १०, ६, शाभी ६, १०,
 ६, ८, ३, ८^०xx, आधी ४,
 ६, १०^०xx, आधी १९,
 १९, १७, २२, ८, २^०xx,
 आधीस, कौट ३ १०, २^०, शां
 २, १४, ३^०, पाट २ १२, ३^०,
 अर्गा ६ ४^०, अम ३, १६^०,
 बास ८ ८^०, -रा आधी
 २०, १४, ७, १५, ३, शाभी २६,
 ११ २६, वाधूरी ३, ३७ २,
 हिशी १४, ३ १६, १८, वृदे,
 -वाग् आधी ९, १०, १५, शाभी
 ८, १४ ६, आधी ९, १२, ८^०,

वीथी २८, १२ : १६, पाट २,
 ६, २, -वाग् आधी १४, ४,
 १४, २०, २२, ४, वीथी १५,
 ९ १, आधी ६, १७, १४,
 आधी १, ६, ४, ४, -वानाम्
 शाभी १०, ८, १७, ११, १२,
 १३, भाग् ३, ८^० ८, या १२,
 ४०, -पानि आधी २०, ८,
 ६, ११, ११, वीथी १५ १३^०
 ५, १०, १९ १४, २० ५,
 वाधूरी, जेथी २६ २^०, -वाग्
 वीथी ७, १७ १८ xx, आधी
 १, ७, ८, १४, -वे
 आधी ५, १८, ७^०, १२^०,
 शाभी ७, ५, २१, ८, ७, १०^०,
 १० २ ७xx, १४, ९, ४^०, आधी
 ५, २, १२^०, ११, २०^०, आधी,
 जेथी १९ १^०, २६ २^०, आधि
 ७, २६^०, वे २, १० १३^०,
 -वेन आधी १२, ४^०, शाभी
 ३, १४, २१, १८, १२, १४,
 ७, १^०, आधी ४, ७, २^०,
 ८, १ २^०, ५^०xx, आधी,
 आधी ८, ४, २, ३३ २, २४,
 २-४, -वेग् अम ३, १८ १३,
 वृदे २, ८१, १२८, ३ ३३, ४
 ८ ८, १२८, -वे आधी २०
 ८, ८, हिशी १४ २, २६, -वे
 वेग् ३, १७ ३, कौट ७ ३
 १७^०
 वैश्वदेवो- वी आधी
 १० ६, ७, शाभी ३, १२, १०, ७

१०, ६, १५, १४, १३, आधी,
 आधी २४, ३, ३९^०, अम ६, ३,
 ५, ५^०, ७०^०, १९, ३^०, अर्गा
 १६, १^०, -वी आधी १७, ८,
 ७, आधी १७, ७, ७xx,
 वीथी १९, १० ३३, आधी २,
 १, ८, १, वीथी १९, ५ ४२,
 -वेग् आधी १७, ८, १२, -वीग्
 आधी १३, २२, ११, १८,
 १२, ११, १०, २३, ६, वीथी,
 अम ५४, ३, ४^०, ६२, ६, २^०,
 ७२ १९, ८^०, अर्गा १७, १^०,
 वीथ ३, ८, १^०, -वीथु वीथी १६,
 २१ १७, २०, -अग् अम २, ८,
 २५, वृदे ६, ६६, अम ३, २०४,
 -अग् आधी २ १७, १३, २०,
 ३, आधी, -अग् आधी ९ ३,
 ५, ६, शाभी १४ ५७, ८,
 आधी ८ १, १^०, १६^०, -वाग्
 आधी २ १६, १, आधी, अर्गा
 १८-१९, १^०, -वे वीथी ८ ३
 १२, हिशी ५, १ ७, -वी अम
 २ २ २०, ६ २१, वृद
 वैश्वदेवो विकीर्ण-
 र्णा निस् ७, ४ ३७
 वैश्वदेवो वत्
 आधी १७ १, २
 वैश्वदेवक- पा ५, १,
 १३३
 वैश्वदेवक- क- क वृदे
 २, १२७
 वैश्वदेवक- क- वे शां

a) विप (पुष्ट, सूच- बहु प्रवृ), नाप, -यप । तस्यद्वीपे ताडस्वरुचिषो अरवाधीषो वा अण
 ष । b) क्रमस ४ २२६२ १, ७ ४ । c) = वत् विशेष । d) = अस्त्र विशेष । e) = पूर्व-विशेष- ।
 f) = अस्त्र विशेष । g) = [विश्वदेवमिषिक] पाक । h) = उत्तराणां वा-नाम- (वृ अम १, ४, ५) ।
 i) = अण । j) = साम-विशेष- । k) = अस्त्र विशेष । l) विप, नाप (हृष्टक [आधी १७ ८, अम १]) ।
 म) = शान्ति विशेष । n) = आहुति विशेष ।
 o) विप (सूच-) । र्णां क्व (पा ५ ४, २९) ।

५, १, ६; वैश्व ३, ७ : २६.
 वैश्वदेव-प्रह- -हम् वैश्वी
 १५, २६ : १५.
 वैश्वदेवप्रह प्रहण-
 -ने शुभ ३, १६५.
 वैश्वदेव-व्य- -व्यम् नम
 २, १, ११९; -व्याय वीथी १३,
 २९ : १०.
 वैश्वदेव चावाशुधिवीय-
 -वो शीथी ३, १२, १०.
 वैश्वदेव-चावाशुधिवीय-
 सौम्य- -म्यान् वैताथी ८, ७.
 वैश्वदेव-द्वय- -व्यस्य वप्र
 २, ९, २०.
 वैश्वदेव-धर्म- -र्मा काथी
 ४, ३, ४.
 वैश्वदेव-वरस- -रपि
 वीथी २१, १ : ३०, २६, १० : १७.
 वैश्वदेव-वासोयत- -तयो
 वापथी २२, २७, २०; द्विथी २३,
 ४, ४०.
 वैश्वदेव-वैतुक- -वै वैश्व
 ६, ११ : १३.
 वैश्वदेव-आर्हृणाय- -व्यो
 शीथी ९, २४, ७
 वैश्वदेव-भक्त- -पा ४, २,
 ५४.
 वैश्वदेव-भारत- -ने
 शीथी ११, २, ६.
 वैश्वदेव-यज्ञ- -यज्ञ वैश्व
 १, १३ ३, -शाय वैश्व १, १५ :
 १७, ३, ७ : ६.
 वैश्वदेव-याज्या-
 -ज्यायाः वैताथी २३, ३.

वैश्वदेव-व्य- काथी १०,
 १, ११, भावथी.
 वैश्वदेव-पारुण-भारता-
 (त आ)भेथै(य-रे)न्रान- -ना
 काथी २२, ७, ११.
 वैश्वदेव-विष्कार- -रान्
 वीथी २७, १४ : २२.
 वैश्वदेव-मत- -तस्य वैश्व
 २, १० : ७.
 वैश्वदेव-शुनासीर्य- -से
 काथी ८, ६, ४५.
 वैश्वदेव-संभार- -रान्
 वीथी १७, ५५ : २
 वैश्वदेव-सुक- -करय
 काथी ६, ६, १६, -कानाम् आथी
 ८, ७, २४, -कानि शीथी १३,
 १९, १३, -के काथी ८, ६, ५;
 ६ : ६.
 वैश्वदेव-स्तु- -स्तव
 शीथी १६, १५, ३; २९, १५,
 काथी २१, २, ४, क्षुम् ३, १४ : २,
 १४; वैताथी ३८, ११, -स्तुवम्
 शीथी १४, ६०, १, -स्तुति शुभ
 ३, २०४.
 वैश्वदेव-रधान- -ने
 काथी २२, ७, २, काथीसं २८
 १४.
 वैश्वदेव-द्विस- -विभिं.
 वीथी ५, १ : १; १२, २ ११,
 १७, २० : ७, वैथी ८, ३ : ११,
 -वैथि काथी २२, ६, ४,
 काथीसं २८ : २५, वीथी
 वैश्वदेव-होत- -हम् वैश्व
 १, ७, ३, -मे वैश्व ६, १७ ११.

वैश्वदेवहोता (म-अ)
 मत- -ने वैश्व १, ४, १.
 वैश्वदेवा(म-आख्या)
 ल्य- शका(स-अ)त- -ने
 जैथीका १८८
 वैश्वदेवा(व आ)दिमाल-
 -वयो काथी ५, १८, ६, शीथी
 ८, ७, ३, १४, ३, १३, १६, ६,
 १६.
 वैश्वदेवा(व आ)वात-
 -रम् वैश्व ४, ३ : ५, ५, १४ : ५
 वैश्वदेवा(व म)म- -ने
 वैश्व ६, १८ : ५, वैश्व २ ४, ६,
 ३, ६, १.
 वैश्वदेवा(व-अ)मिष्य-
 दात- -रे वाथी १४, ६०, ३
 वैश्वदेवा(व-अ)वसान-
 -ने वप्र २, ३, ५
 वैश्वदेविक- -क-आपथी
 २४, ३, ३८; मीम् ७, १, २३,
 -कम् माथी १, ७, ३, ३, गीथि
 २, २, १७, ४, १८, -का वप्र १,
 २, २, -कानि शीथी ३, १४, ३,
 १८, २, -के वप्र १, ९, ७, वप्र
 २१०, -केन माथी ६ १७, ९
 वैश्वदेविक-सम्भ-
 -रम् काशु ४५ : ३
 वैश्वदेविकै(क ए)
 ककपाल-वर् वैथी ८, १ : ६
 वैश्वदेवीय- -नेन द्विथी
 ३, ८, ८०.
 वैश्वदेवो(व-अ)त-
 शानि काथी १, ७, १, १
 वैश्वदेव- -म्यम् वापथी

a) उप = भाग-। b) = एकाह-विशेष-। उत उप, अथिक्केले विष् प्र.। c) मत > मत > मत ।
 इति पाठ ? यदि शोघ. (शु [अर्थ] जैथी १२ : १)। d) विप । मयाथे इदमथे वा प्र.। e) कम्
 इ) सपा मै २, १३, १३ विश्वदान्य. इति पामे । f) वय प्र उर (पा ४, १, ८५)।

१६, ३५, १; वैश्री १९, १:
७; द्वित्री ११, ८, २१; -रूपानि
या ७, २३.

विश्वदेव-भक्त- पा ४, २, ५४.
विश्वदेव-मनुष्य- -स्तुता आश्री
१, ८, ७.

विश्व-क्षेत्र- > वैश्वदेव- - नाम्
द्वे ६, ८७; ८, १३३; -ते द्वे
७, ३७.

वैश्वदेव (रथ) (रथ) - -वा
अथ १, १९.

वैश्वदेव- > विश्वदेव्या-वत्-
पा ६, ३, १३१; -वत्ता वाश्री
१०, ५, ९०, ७, १३; आपश्री १३,
१२, २०; वीश्री ८, १२: १७०;
माश्री २, ५, १, ३२०; द्वित्री ९,
३, ४९०; वैताश्री १४, ७; -वत्ता
आश्री ९, ११; -वत्ता आश्री ५,
१, १५; शाश्री ६, ७, १०; वीश्री
७, ५: ११; ९, १०: ११; द्वित्री
१६, ८, २३; तैत्रा ३, ५; -वत्ता
आश्री ५, ३, १०; शाश्री ६,
१, १३; -वान् काश्री १०, ७,
१३.

वैश्वदेव-वापश्री- -तो वीश्री
१०, ६: ८; छत्रा ३, ११७;
-ती: वीश्री १०, ६: १०;
-तीम् वीश्री ६, २३: ३.

विश्व-पर- -०२ विश्व ९८, ६९.
विश्व-वत्- (> वैश्व- पा.) पाग
४, ४, ६२.

विश्व-वापश्री- -या: वीश्री १, ३:
११३.

विश्व-वैश्व- > वैश्वदेव (गै)वत्-
(> वैश्व- पा.) पाग ४,
२, ५४.

विश्व-वैश्व- -श्री: आपश्री १९, १३,
६; वीश्री १९, ५: ५; द्वित्री
२३, २, ४०.

विश्व-वैश्व- -पाठ १, १५९.

वैश्वदेव- (रथ) (रथ) - -वत्ता
आश्री ९, १, ११; शाश्री ३, ५,
११; वीश्री ७२, १४; माश्री १२,
१.

विश्व-वैश्व- -श्री: शाश्री ६, १३,
१०; आपश्री ११, १४, १०; १५,
१७; १८, ३, ४: वीश्री;
वैश्री १४, १३: ६; द्वित्री १०,
३, ४१; वैताश्री ५ १४।

विश्व-वैश्व- -श्री: शोष २, ७,
१०।

वैश्वदेव- -श्री: माश्री १, १, ३,
२७; वीश्री १, २, २, ३२.

वैश्वदेव-वैश्व- -श्री: द्वित्री १०, २,
६५; -श्री: आपश्री १८, १३,
१५; वीश्री १२, ८: १४; माश्री
७, १३, ४; वीश्री ३, ३, २, २३;
द्वित्री १३, ५, १४; आपश्री ४,
३; -श्री: आपश्री ३, ११, ११;
आपश्री २, ६, ३; माश्री ९, ८,
६; माश्री ३, १, ५; वीश्री २०,
११: ४; द्वित्री १५, ३, ११.

वैश्वदेव-वैश्व- -श्री: आपश्री ३,
११, २०; माश्री ३, १०, २; द्वित्री
२, ६, १; -श्री: आपश्री ४, ४,
१; माश्री ४, ४, ३; द्वित्री ६,
१, २६.

वैश्वदेव-वैश्व- -श्री: आपश्री ८,
८, ७०; -श्री: आपश्री ७, २३,
१५; ७२, ३, १६; वीश्री २०, १.

विश्व-वैश्व- -श्री: आपश्री ८, ५०.
विश्व-वैश्व- -पाठ ४, २, २८.

विश्व-वैश्व- -श्री: आपश्री २, ८,
२३; छत्रा २, ४३; साम १,
१०६; ११४; ३९०; ३९६; अथ
२०, ६४.

वैश्वदेव-वैश्व- -श्री: आपश्री ११,
६, १०; -श्री: आपश्री ७, ५,
१९.

विश्व-वैश्व- -श्री: आपश्री ४, १०,
३१.

विश्व-वैश्व- -श्री: आपश्री १८, १३,
१५; वीश्री १२, ८: १४; माश्री
७, १३, ४; वीश्री ३, ३, २, २३;
द्वित्री १३, ५, १४; आपश्री ४,
३; -श्री: आपश्री ३, ११, ११;
आपश्री २, ६, ३; माश्री ९, ८,
६; माश्री ३, १, ५; वीश्री २०,
११: ४; द्वित्री १५, ३, ११.

वैश्वदेव-वैश्व- -श्री: आपश्री २४, १२, १०.

विश्व-वैश्व- -श्री: आपश्री २३, ७, ८०।

a) = वैश्वदेव-वैश्व- । b) साऽऽवदेवतीवः प्र. । c) इ २२६४ f द. । d) वैश्व १ द. । e) सपा.
वीश्री १६, १३: १६ विश्वदेव्याः इति पाठे. । f) = विष्णु- । उच. । g) माश्री. । h) सपा. मा १, ३ प्रथ.
विश्वदेव्याः इति पाठे. । i) इ. अथ. । j) माश्री. पाति [१३] न्येः इति । k) नाश्री. [श्रीमन्मन्त्र-विशेष- (सप्त
त अथे समिप्यः [श्रीमा ३, ११, ५, १]] । उच. विश्वन्तम् । l) पाठे वैश्व १ कृ ५, ८, ५ विश्वदेव्याः टि. द. ।
m) सपा. मा ५, ३३ विश्वदेव्याः इति पाठे. । n) पाठे वैश्व १ कृ १, ११०, १ विश्वदेव्याः टि. द. । o) पाठे.
वैश्व १, २३३३ ज द. । p) मत्त. । q) = प्रादि-विशेष- । r) तत्पदेदमापश्री मन् प्र. । s) = प्रथम-विशेष- ।
t) = साम-विशेष- ।

१ विश्व रूप, पा^०- पा ५, १, १२४;
 -पंवा: आश्री ३, ८, १; शोश्री;
 Sशाधुश्री ४, ६८: १; १६: २१;
 २२; Sश्व २०, २, १; ५, १; वा
 १०, ३४६; -पंवा आश्री ५,
 १८, २; ७, ९, २; शोश्री; वृदे ६,
 १५२^०S; वा १२, ८६; ३८;
 शैशि इ६१S; -पत्त्व नाश ४:
 ७; १३: ३; -पंवा आश्री ४,
 १२, २; आश्री ६, १७, ५^०;
 वाश्री; अष ३१, ३, २S; -पा:
 आश्री २, २, १७^०; आपश्री;
 वाधुश्री ४, ३२: १७; ७३: २;
 द्राश्री २, ४, १७^०; २३^०; २४^०;
 लाश्री १, ८, १३^०; १६^०; सु
 २५, ५; अष ९, २, ६; ४८, १४^०;
 ५२, ३, ५; वृदे ४, १४२; निष १,
 १५^०; वा ११, २१^०; -पाप्वा
 द्राश्री २, ४, ६^०; लाश्री १, ८, ५^०;
 माश्व २, ३२: १४; -पाप्वा:
 द्राश्री २, ४, २२; लाश्री १, ८, १५;
 -पंवाश् वाश्री ८, २०, १; द्राश्री;
 -पाश् आश्री २, ६, ८: ३७^०;
 -पाप्वा^० शोश्री २, ५, २१: २;
 शैश्री ८: २७; शैश्रीका १५९;
 -पंवे शोश्री १०, २२: १४;
 शैश्री १८, १३: १०; शैश्री.
 २ विश्व-रूप- > १ विश्वरूपी^०-

-वी शोश्री २, १२, १^०; ८, २०, १;
 आश्री ५, १४, ५४४; शोश्री.
 २ विश्वरूपी^०- शोश्री:
 आश्री ६, १७, ४; शोश्री ३, ८:
 २३; माश्री ६, २, ७; शैश्री ६,
 ६, १६.
 १ विश्वरूप- -रम्^० अश्राम
 २, ६.
 १ विश्वरूप- पा ५, १, १२४.
 विश्वरूप-एष्- -एष् वृदे ६,
 १४९.
 विश्व-लिङ्ग^०- -ङ्ग: वृदे २, १२८;
 -ङ्गम् वृदे ३, ३३; ४२; ४३^०;
 वा १२, ४०.
 विश्व-लोप(वशा.)^०- -०पं^० आश्री
 १३, २४, १६; शोश्री ४, ११:
 ११; १४, १३: १७; शैश्री १६,
 २८: ६; शैश्री ९, ६, २८; शैश्री
 २४, १६; -पम् शोश्री २१, २:
 २८^०; -पेन शोश्री १०, ४: ३^०;
 शैश्री १८, १: ४४.
 विश्वलो(प>)श्री^०- -वी: शोश्री
 १७, ३०.
 विश्व-वल्- -वल् शोश्री ५, १, ६,
 २७.
 विश्ववर्ती^०- -ती निष् ७, ३:
 १८; -तीभि: निष् ७, ४: २६;
 ३५; -त्व: निष् २, ११: २४;

७, ४: ३६.
 विश्व-वार, रा^०- २: आश्री ५, ६,
 ३; -रस्व पाठ १, १८, ४; -वा
 आश्री ३, ५, ९: ८; शोश्री १,
 ४: २३; अश्राम २, ५, २८^०S; वृदे
 २, ८२^०S; श्रुश ३, १००^०S,
 -०रा आश्री ८, ११, १; शोश्री
 १०, ११, ५, अश्राम २, ७, ५०;
 -राम् शोश्री १, ६, १६^०; -२
 आश्री १, ४, ११^०.
 विश्व-वास^०- -वास: श्रुश २, ३, ७^०;
 विश्व-वा(०>)सा^०- -सा: आश्री
 २, १, ३: १७^०.
 विश्व-विद्- -विद्^० आश्री ५, ९,
 १; शोश्री १०, ४६: ११; -विद्^०
 आश्री ७, १७, १; शोश्री ४,
 ६: ३५; ११, ४: १९.
 विश्व-वेदस्- -पाठ ४, २३८;
 -०द^० शोश्री ४, १०, ३; ३;
 शैश्री ६, २, १७^०; -पंवस्व
 आश्री २, ५, १२; शोश्री १०, १०,
 ८; १४, ५९, १४; माश्री ६, २, ९,
 १९; वाश्री २, २, १, २८; -पंवे
 शश्री ५, १, ८; आश्री १, ५, ४;
 २२; शोश्री ४, ११, २, शैश्री ४,
 १: १५, ६, ९: ५; -पंव: आश्री
 २, ११, १२; ३, ७, १५^०; ४,
 १०, ५^०; शोश्री ३, ६, २; ६;

a) = १ विश्वरूप- (श्रु. शैश्री १)। b) अश्राम (अश्राम- [पाप्वा-])। c) सपा. वा (वे १, ५, २ च)
 <> श्री (मा ३, २२ माश्व २, ३, ४, २७ च) <> श्री: (शै १, ५, ६, २; ८, २ च) इति पाठे। d) = श्रु- (श्रु
 ५, ८९, २)। e) पाप्वा इति पाठः। यमि. शोश्री: (श्रु. शोश्री: १)। f) = [श्रु १६९०] वाहन-विशेषः। g) शैश्री
 इति च। h) = २ विश्वरूपी- (श्रु. शैश्री १)। i) पाठः। विश्वरूपम् इति शोश्री: (श्रु. संस्कृतः श्रु. सपा. सर्वरूपम्
 लुणादि- इति सूची। j) वल्। k) पाप्वा. शैश्री १ विश्वलोप वे ३, ८, २ डि. श्रु.। l) अर्थः। = [श्रु १६९०]।
 पाठिः < विश्वलोपा- [अमापास्या-] इति। m) = श्रु-। n) = श्रु-। o) = श्रु-। p) शपा. शै २, ५, १
 विश्ववातम् इति पाठे। q) वल्. उप. = वासव-। r) पाठे. श्रु ११९२ b श्रु.। s) पाठे. शैश्री १ विश्वरूप
 वे ५, ६, ८, ६ डि. श्रु.। t) सपा. शै २, १० विश्वमतः इति पाठे। u) पाठः। (श्रु. सपा. आपश्री ४,
 ७, २ शैश्री: इति पाठे.)। v) सपा. श्रु ३, २०, ९ प्रव. मन्तुरिक्षम् इति पाठे।

१२, १७, पाथी ८, ९, २२,
 आपथी
 पवित्र-वचस्प- -चसम् हिथी
 ११, ७, ५१, -चसे आपथी १७,
 २, ६, -चा आथी ३, ९, २४,
 साथी ६, १२, २४, आपथी १,
 १३, ९, २२, १७, १०, वीथी,
 पवित्र वाथू- -०मुच वीथी ६, ४
 ४, २१, ८ ४७, भाथी १०,
 ५, १०, वाथूथी ४, २९ १०,
 -मुग्म् आपथी ८, ८, ७०,
 -मुना आथी ६, ५, १८, साथी
 १८, २०, ५ -थू गौपि २, ५
 १५, -थू साथी ९ २ १८,
 वीथी ७, ८ १०, १४, ५: १०,
 हिथी १०, २, ६५
 विश्व शान्ति- न्तीनाम् अथी २०,
 १,
 विद्व-श चन्द्र- -द्रम् वा ६,
 २०
 पविश्व-स्वामन्- -०मन् शत्र २
 ५, २२, -मा आशिव १, ५ २
 ३९, वैथ १, १८ २ २ अथ
 २, ५, १२, ४
 विद्व रज्- -श्वत् आथी २
 १४, १०, आपथी २०, २०,
 ९ हिथी १४, ४, ३८, -श्वत्
 आपथी २३, १४, १५, १६, १६,
 वीथी २७, १९ ७, ११, हिथी
 १८, ४ ६८

वैश्वरज- -ज आपथी
 १९, १५, १, ७, ११, वीथी
 १९, ९ १४, हिथी २३, ३,
 २२, २८, ३१, -जम् आपथी
 १९ १५, ९, हिथी २३ ३, २९,
 आशिव १, २ १ १३, -जस्य
 वीथी १२, ९ १, -जात् वीथी
 १९ ९ १०
 वैद्वसजा(ज-भा)रग-
 -था वीथ ३, १, २३
 विश्वरजा(वात्यस्तोम-) साथी
 १४ ७, १
 विद्वसजा लक्ष्मणवत्सर-
 रम् आथी १२, ५ १९, साथी
 १३, २८, ८, काथी २४ ५,
 २४, २३, १४, १४, हिथी
 १८ ४, ६८
 विश्वसजा-भयन- -नम्
 वीथी २६, १२ ७, २४ १८,
 -यने आपथी १९ १५ ७, हिथी
 २३, ३, २७
 पवित्र हा- आपथी १६, ६, ७,
 वीथी १८ ४ ११, वाथ १५
 १०, अथा ३, ४, १
 विश्वा(र प्र)श- -०श विथ १,
 ५२
 पविश्व(श म)श- श्रावि वाथी
 १, १, ५ १९, -शै माथी २, ५
 ४, २४
 विश्वा(श वा)श- -मना वृदे

४, १२१, -रना अथ ५२, १४,
 १, चव्यू ४ १९
 विश्वा(श-प्र)शिव- -था माथ
 १, ११, १६
 वि(ध>)श्व न- श्रात् ५, १, ४,
 पा ६, ३, १२९, पाग ४, १,
 १०४, ११०, ५ ४, ३८,
 -र अथ ४८, १४ ११ वृदे १,
 १२७, साथ १, ३६४, पविथ
 ५, ५, ६, मा ७, २१, १३, ११, ८,
 १०, ११, १२, २०, नासि २, ३,
 ४, -रम् अथ ३, १५, नासि
 २ ३२ -पूरस्य आथी ७ ६,
 ४, साथी १०, ३, ६, साथ ३,
 ३६४, ना १२ २१, -श्राथ
 मा ११, ९, शुषा ३, १०२,
 ५, ३७, -शै अथा ३, ४, १,
 शीथ ३ ९, -शै मा ७, २३
 वैश्वानर- -पा ४, १, १०४, ५,
 ४, ३८, -शै आथी ८, ९
 ७, साथी १०, १०, ८, वीथी,
 -र आथी २, १२, ५, १५,
 २१, ४, १०, १, १८, ४, १, ११,
 १, ५, साथी २, ५ ३, ८, २३,
 १, १, ४, १६ २३, २२, २५,
 वाथी, आपथी २१, ५ ०,
 २२ २३ ६, २३, ४, २,
 श्राथी ४ ११ ४, माथ २,
 ८, ६, वैथ ३, ७ २७, अथ
 २४, ६, १, श्राथ २, १०, ७, १,

a) वृ २२६५ टि द । b) वैथ १ द । c) सपा मै ४, १०, ४ मुच इति पाठे ।
 d) पाठे वैथ १ विश्वरूपे मा ९ १९ टि द । e) पाठे वैथ १ विश्वरूपे टि द । f) = कपि विशेष ।
 g) वैथ १, ५२९ टि द । h) पाठे वैथ १ विश्वरूपे मै ४, १४, १ टि द । i) = [विश्वरूप-]
 देव विशेष । j) = चयन- [लक्ष्मणवत्सर] श्रात्- कार्णवविशेष- । तस्येदमित्यथ अण् प्र । k) पाठे वृ २५७ टि द ।
 l) = कपि विशेष । m) = विष्णु । यत् । n) यत् । o) यत् वा यत् वा । p) यत् । विश्व आ-
 इति ङ । q) वृ पाठम् । r) अथय स्थापार्थम् प्र । s) वृ आन । वि इति ङ । t) = अति-पाठ ।
 u) पाठे वैथ १ वैश्वान्तु टि ५ ५, ८ टि द । v) = अति । w) सप्त, सपा आथ २ ४, १४ वैश्वानर
 इति पाठे ।

निप ५, ११, या ७, २०, -रम्
 ष्वाधौ ७, ७, ४, ८, १०, ३, ९,
 ५, ५; १०, ५, १९, शाधौ,
 काधौ ९, ६, २३, १०, ७, ८, मु
 २६, ५; -रस्य आधौ ८, ८, ४, १;
 शाधौ १२, १७, ११, आपधौ,
 -ऋः शाधौ ४, १०, ३, ८,
 २१, १; आधौ, -राध ष्वाधौ
 २, ४, १४, ३, १३, ८, ५;
 २०, ६, ७, ७, २, शाधौ, -ऋ
 आपधौ २, २१, ७, ८, १, ४;
 बौधौ १, १७ : २०, ३, ४ : १२;
 १३ x x, भाधौ, -रेण ष्वाधौ
 १, ३, २३, २, ५, ७, शाधौ १,
 ६, २; काधौ १८, ४, २३, ३,
 आपधौ ६, २१, ११ x x; बौधौ
 वैश्वानरी -री आपधौ
 ४, १३, ४, १, बौधौ २७, ६ :
 २०; भाधौ ४, १९, ६, १,
 माधौ, -रीणि बौधौ २९, ६ :
 १५, वैधौ २१, १७ : ९, -रीम्
 आधौ २, १२, ६; बौधौ २८,
 २ : ५७, २२, १३ : ५, ८,
 वाध २२, १०; राध १४, ८,
 बौध १, १, ३३, शुध, -र्यः
 द्विधौ २२, २, १९, आधि २,
 ४, ५ : ११, बौध ४, ७, ५, -र्या
 आपधौ १४, ११, ४, १६, १५,
 १, ७, १६, १, ३४, ६, १९,
 १२, १८, बौधौ, -र्यो शुध २,
 ३५
 वैश्वानर-ज्योतिर्- -तिः
 शुध २, ४२२.

वैश्वानर-दैवत- -रम् कर्
 २, १, १९
 वैश्वानर-पथ- -यम् अप
 ५०, ४, १.
 वैश्वानर-पर्यन्त- ->
 पार्यन्त्या - न्या आपधौ
 ८, २२, १६, -र्या माधौ १, ७,
 ८, १३; -र्याम् भाधौ २, १५,
 १.
 वैश्वानरपार्यन्ते- -
 इष्टि- -ष्टिः वैताधौ ८, ९,
 -ष्ट्या काधौ २८ : २५
 वैश्वानर-पायिकृत- -र्यो द्विष्ट
 १, २६, २२.
 वैश्वानर-पार्यन्त- -र्ययोः
 बौधौ २१, १ : १३, -र्ये भाधौ
 ९, २, ६, माधौ ८, २४, ११;
 -र्यो काधौ ५, १, ३; द्विधौ
 ५, ६, १३.
 वैश्वानर-मारुत- -रान्
 काधौ १८, ४, १६, बौधौ १०,
 ५१ : ४, -रानाम् बौधौ २२,
 ९ १९.
 वैश्वानर-पर्यन्त- ->
 वैश्वानरव्याहण- -र्येण माधौ
 ५, १, ७, १०
 वैश्वानरवारुणी -
 -र्या काधौ ३, ४, ५०.
 वैश्वानर-वारुण- -र्यौ
 द्विधौ १३, ३, ४४
 वैश्वानर धत- -र्यम् त्रैधौका
 ५३.
 वैश्वानर सूक्त- -र्येण वैधौ

१, १ : १०, वैष्ट १, २१ ११,
 ४, १ : १८, वैष्ट २, १, ८
 वैश्वानर स्तुति- -र्यो भूदे १,
 १००
 वैश्वानरा(र-शा)द्विष्ट-
 -र्ययो वैताधौ २८, १४
 वैश्वानरीय, या- -र्य शाधौ
 ९, २४, ३, काधौ २, १, २,
 ५, निम् ९, ५ : १६, राम २,
 १०५८, या ७, २३, २४, ३१,
 -र्यम् आधौ १, ५, ३१, ४, १२,
 २, ७, ७, ८, शाधौ, -र्या
 काधौ ४, ८, २६, माधौ ५, १,
 ५, ५६, द्विधौ १२ ५, १४, चात्र
 १६ २६, निम् ९, ५ : १६,
 -र्या साध १, ६१०, -र्या
 या ७, २३, -र्याम् माधौ ५,
 १, ५, २४, -र्याणि शाधौ ११, ७,
 ११, बूदे ५, १६१, -र्याम्
 कौम् ३१, ५, -र्याम् शुध ३,
 ६०, -र्याम् या २, २०, -र्ये
 माधौ ६, २, ५, २४, वाधौ २,
 ३, ४, ३, बूदे ४, १६, -र्येण द्विधौ
 १४, २, ३४, बूदे १, १०२,
 या ७, २३
 वैश्वानरीय पार्यन्ते (र्य
 -र्य)ष्टि- -र्ये शाधौ ३, १३, ३
 वैश्वानरीय मारुत- -र्यो
 शुध २, ३, २६
 वैश्वानरापथ- -र्या ४, १, ११०.
 वैश्वानरि- -र्य बौधौ ३३ ४
 ष्वि(श्)र्या-शुष्ट- -र्युष्ट
 शुध ९, २३, शुध ३, १०१

a) = अति-रान- । b)) = अह-विशेष- । c) = अग्नि- । d) सह-पठ १ ० इति शेष- (इ
 चौध, भाष्य च) । e) विप (आज्येडा-शुध-), नाप- (इष्टि) । f) बरा । g) इष्ट । h) नाप (इष्टि) ।
 i) "अन" इति पाठ १ मनि- शोध । j) सारुदेकवोच- अम् प्र । k) = ताम-विशेष- ।
 l) सया काठ ४६, ५ विश्वपुत्रम् इति पाने- । m) = अग्नि विशेष- । n) = सूक्त-द्वय । o) वैष्ट १ ६ ।

विश्व(श्व-आगा)>भ^०- औः अण
 ६८, १, ४६.
 वि(घ>)श्व-भू^०- भुवे वा ११,
 १४^०; ऋषा ९, २३; शुभ्रा ६,
 १०१.
 वि(घ>)श्व-मित्र^०- पा ६, १,
 १३०; -०त्र शौच ३, ९; -त्रः
 शोभो १५, २१, १; २४-
 २५, १^०; २६, १; बौधोप;
 -त्रम् वैप १, ४ : १४^०; -त्रस्य
 शोभो १५, २४, १; बोधो १८,
 ५२ : १०; ऋष २, ३, ३३;
 शुभ्रः -आणाम्^० आपथो २४,
 ९, १; द्विधो २१, ३, १२; -आम्^०
 बौधोप ३१ : १; -आय आमिष्ट
 १, २, २ : १५; बौधु ३, ९, ३;
 माय ३, १० : ११^०; द्विष्ट २, १९,
 ३; -त्रे वृदे २, १३१; -त्रेण
 वृदे ४, ११८.
 वैश्वामित्र^०- ०त्र आगो
 १२, १४, २; ३; ४^०; ५; ६^०;
 आपथो; -त्रः शोभो १५, २४,
 १; बौधो २, ३ : ५; वैधो १२,
 १ : १९; ऋषः -त्रम् आथो
 १०, २, २५^०; -त्रस्य भीसु ६,
 ६, २६^०; -त्राः शोभो १५,
 २६, १; २७, १^०; -त्रो ऋष
 २, ९, ७१.
 वैश्वामित्रो- ऋषोम्
 वीष्ट २, ३, ७; शोष्ट २, ७, ११^०.
 वैश्वामित्र-रुडोषीय-
 ये निम्बु ४, २ : ३६.
 विश्वामित्र-कौशिक- -कानाम्
 वैष ४, १, ४.

विश्वामित्र-गोतम-विरूप-
 -याः अक्ष २०, १.
 विश्वामित्र-जमदग्नि- -नी
 शम्भ २, १०, १६७; शुभ्र ४,
 २९९.
 विश्वामित्र-जमदग्नि-भारद्वाज-
 गोतमा(म-प्र)त्रि-वसिष्ठ-
 काश्यप- -वानाम् वैष ४, १, २.
 विश्वामित्र-देवधवल-देव-
 तरस- -रसा. बौधोप ३३ :
 ११८.
 विश्वामित्र-पक्ष^०- -क्षे बौधोप
 १ : ४.
 विश्वामित्र-वचस- -श्चः वृदे
 ४, १०८.
 विश्वामित्र-वल् ऋषापथो २४,
 ९, २-४××; बौधोप.
 विश्वामित्रस्य-संजय^०- -यः
 आपथो २२, २०, २; द्विधो १७,
 ७, ११.
 विश्वामित्र(त्र-भा)दि- -दीर्
 वैप २, १३, ५.
 विश्वामित्रो(त्र-इ)त्र- -द्वौ
 जेष्ट १, १७ : १५.
 विश्वा(श्व-आ)यु^०- -युः माथो ३,
 १, २४^०; -युवः^० वैधो २, ५ :
 ३१.
 विश्वालुपोप^०- -पसम् आपथो
 ८, १४, २४^०.
 विश्ववा(श्व-आ)यु^०- -युः आपथो
 ५, १, १; शोभो १७, १२, १;
 ५; माथो ४, २, २५; आपथो
 १, १३, ५; २४, ९; ७, ५, ९,
 ११, १५, १; १५, १४, ५; १२.

२४, १०; २२, २६, ९; बौधो
 १, ३ : २३; ९ : १३; ४, २ :
 १२; ९, १४ : १३; १३, २२ :
 २०; ३५ : १५; १८, ९ : ३४;
 माथो १, १३, ९; २५, १०; ७,
 ५, १; ११, १४, ६; माथो १,
 १, २, २७; २, ३, २०; ७, ३, २४;
 २, ३, ७, २; वायुधो ४, १०० :
 ५, १७; २२; माथो १, २, २,
 २२; ६, १, ३५; वैधो ३, ७ :
 १३××; द्विधो १, ३, ४०;
 ६, ४२××; आमिष्ट २, ४, ६ :
 ३४; ५, ३ : ३९××; बौधु
 आपथ ४, १; शुभ्र १, २७.
 विश्व(श्व>)श्व-रालु^०- शत ५,
 १, ४; शौच ३, ९; पा ६, ३,
 १२८^०; -रालु^० आपथो ११,
 १२, ३; बौधो ६, २८ : २९;
 वैधो १४, ८ : १; द्विधो ७,
 ६, २०.
 विश्व(श्व>)श्व-वल्^०- -वल्ः
 आपथो १३, १५, ८; बौधो ८,
 १४ : ३७; वैधो.
 विश्व(श्व>)श्व-यु^०- शत ५, १,
 ४; शौच ३, ९; पा ६, ३, १२८^०;
 पाय ४, १, १०५^०; -सने
 काष्ट १७, १; -युः आपथो २,
 ९, ५; बौधो १, १३ : २०;
 ६, १६ : ७; माथो; ऋष २, १०,
 १३९^०; १३९^०; १३९^० १, १०३;
 २, १२२; आपथो १, ८^०; -युम्
 आगो १, १०, २; वीष्ट १, ६,
 २३; वृदे ७, १३०^०; -०तो
 शोभो १६, १३, १३; आपथ

a) पस. । b) वैप १ द. । c) वृदु. < वैश्वामित्र- । d) वप. , नाप. । e) = ऋषोप-
 विशेष- । f) वि० इति प्रवात. । g) वलः इति वाठ. ? मनि. सोवः । h) पप. । i) = चण्डाल-विशेष- ।
 j) सवा. आपथो ९, १३, ९ औरदालुः इति पामे. । k) वैप १, २, ३ सं. य द. । l) सवा. मा ५, २४ प्र. ।
 संवृत् इति पामे. । m) = ऋषि-विशेष- । n) = मुहूर्त-विशेष- ।
 वैश्व-२-२०

१, १०, १, षीष्ट १, ६, २३, -सो
 षीष्ट १, १२, २, षीष्ट १, १९ :
 २, शुभ्र २, ३० १९^०, -सो^०
 अथ ४, २, २, आउवो २, ७
 वैदग्ध्यस्य- पा ४, १, १०५
 ऋषि(श्व)इवा-साह- -याद्
 आप्तो १७, ६, ०^०, षीष्टो १०,
 ४६ १^०, षीष्टो १९, ५, २०^०,
 हिथी १२, २, १३^०, ऋषा ३,
 ४, १, -साहम् ऋषा ९, ३,
 शुभ्र ३, १०१, १२२
 ऋषि(श्व)इवा^०शो ११, १३,
 २९, आप्तो १२, १४, १२,
 माथो ५, २, १, ९, वाथो, आमित
 ३, ८, २, ३९^०, शुभ्र ३,
 १०२, ५, ३७, अथा ३, ४, १
 विश्व-देव- -वयोः आमित ३, ३,
 १:१६, -वान् आमित ३, ३,
 २ ९, वैष्ट ३ ९, अथ ४४
 २, ३, षीष्ट २, ५, २०^०६,
 -वाग्नाम् वैष्ट ७, ८ ५, -वेद्य
 षीष्टो १५, २७ ४^०, आमित ३,
 ३, १ ८, -षी षीष्टो १, ४ ८,
 वैष्ट ६ २ १३
 विश्वेदेव गण- -गा वृदे १३६
 विश्वेदेव-वैव(१५)^०या^०-
 -त्या वैष्ट २, २ ७
 विश्वेदेव-वृ^०- वंम् वैष्ट ४, ४
 २१
 विश्वेदेव-स्तु^०- -स्तुम् हिथी
 १४, ६, २०

विश्वेदेवा(व-अ)र्ध- -र्धम् वैष्ट ७,
 ८ १, -र्धं वैष्ट ४, ३ ३
 विश्वेदेवो(व-उ)च्छिष्ट-समीप-
 -ये गौपि २, ४, १८
 विश्वेदेव्य-> -पा वत्-
 -वत् षीष्टो १६, १३ १६^०
 विश्वे(ध ई)श- -सम् वृदे ८, १४०,
 -सा अथ ४३, ५, ५७^०.
 विश्वे(ध-ई)शान- -नम् आमित २,
 ५, ६ १०^०
 विश्वे(ध ई)श्वर- -र अथ ३६ ९,
 ३, विष्ट ९, ८, ६८, -रम् आ
 ७०, ९, ४, अगा १४, १, -रस्य
 अशा १४, २
 विश्वेपा देवाग(प्रात्यस्तोम-)शो ३
 १४, ७०, १
 विश्वेपा देवानाम्(इयन-) शो ३
 १०, १३, १४
 विश्वो(ध शो)वस्- -जा शो ३
 १६ १८, ४^०
 विश्वक- -क ऋष २ ८, ८६
 विश्व कथा- प्रसु विश्व- द
 वि^०श्वस्, विश्वसेव आउवो १०, ९
 विश्वस्व-> वैश्वस्य- पा) पाग
 ५ १, १२४^०
 विश्व-सामन्- प्रसु विश्व- द
 विश्वार्ति-व^० माष्ट २ ७, ८^०
 विश्वा वत्- प्रसु विश्व- द
 ऋषि(श्व)इवा^० -इन्वा या २
 ४^०
 ऋषि^० पाया जु उम ष्याती, विष्

वेवेष्टि अथ ४८, १५ निष्ट २,
 ८, विविष्टि आशो २, ११,
 १४, या १०, ८
 विवेप शो १३, १२ ३, ३५^०
 १०, माथो ५ १, १ ४३, हिथी
 २२, ५, २१
 विवेपे अथ ६४ ७, ४
 ऋषि(श्व)इवा- -या शो १०,
 ३१ १३, ३९ २२, हिथी ११
 ७, ३१, १२, १, ११, ३०
 ऋषि^० आशो ८, २०, १ अथ
 ४८ ६१, निष्ट २, १, या ११,
 १६
 वैविष्ट- वत् आशो ३ १५, ५^०
 वैविष्टाम- -का या ७, २^०
 वेवा- पाग २ ४, ३१^०, -प
 काथो ४, १, १२, अथ ४८, ११^०,
 १५^०, निष्ट २ १^०, -वम् विष्ट
 ७३, ५^०, -प^०पाय आप्तो १,
 १७, १, षीष्टो १, ४ २५ माथो
 विश्वे वि, शी^०- वि षीष्टो १४
 २० १२^०, -विष्टम् शो १५
 ३, ८, आशो ५ ११, ८, वेताथी
 २६, १४, -विष्ट^० शो १५ ३
 ८, आशो ५ ११ ८, -विष्ट^०
 वेताथी २६ १४, -षी^० वाथी
 १७, ११ ११, आशो १५ ३ ८,
 वाथी ५, ११, ८, वेताथी २६
 १४
 वेव्य- पा ५ १, १००
 विष्- -विष्ट विष्ट २२ ८१

a) = ऋषि विश्व-। b) = शुद्ध विश्वे। c) वैष्ट १ द्र। d) पागे वैष्ट १, १०० १ द्र। e) या इत् पाठ। f) मनि शोध (वृ सपा शो १८, ४, १४)। f) वस। g) विश्वाम् देवान् इति कौस Holtzsch। h) वस। i) = एनाह विश्वे-। j) = विश्व-ना का। k) पागे वृ २२६५ ७ द्र। l) पागे वैष्ट १ शिथीका द्र। m) वृ पागम। n) पाठ (विश्वविश्व इति कौ)। o) वृदे २, ६९ पा ७, ४, ७५ पराम्ष्ट द्र। p) वैष्ट १ निर्दिष्टयो समवेष्ट द। विश्वे टि द्र। g) = नेपथ्य- इति पागम। r) = वसन्। s) = गसन्। t) = वेष्टया। वेष्टम् इति षीष्ट। u) सपा ऋषि (ते दे, ५, ३, ५ प्रष्ट व) < > षी (वा १६, २७ प्रसु) इति पागे। v) परस्परं पागे। w) = पुरीष-। x) < > विष् (ष्याती) इति अमा। y) विष् (मले) इति मतम्।

विद्-ज- -जम् वैष २, १५, ५
 विद्-वाह- -हम् विष ८१, ८.
 विद्-वराह-कपि-काक-गोमायु-
 न्युगम् सुभ ४४
 विष्-भूय- -ग्रा-भाम् वैष ३, ४, ११,
 -श्रे कप १, २, ४, वैष ३, २, ६.
 १विष्- - पाउना ५, ५४, पाग २, ४,
 ३१०, ५, १, २, १०४, -०५
 विष १३, ६, -पम् द्विषी २६,
 ४, ३५१^१, सु १८, ५, कौस्तु ४७,
 ४७, १०२, २१, १, १, १, १, १,
 १५५, ४८, ७५^१, अक्षा, निप
 १, १२१^१, या १२, २९१^१, अमा
 ३, ४, ११^१, -पाणि विप १३, २
 वैष- वा ५, १, १०४.
 २विष्-> विष्-दृष्ट- -ष्ट द्विपि
 २३: १६
 विष्-कलि- -लिम् भाषी २,
 १७, ४१^१
 विष् विद्या- -द्या, -द्याम् भाषी
 १०, ७, ५
 विष्-काम- -मा कौश्री १७, १८:
 ८.
 विष्-भ- -भम् हृदे ४, ६४
 विष्-भ- -भो ह्रम २, ८१.
 विष्-भ- (भ-भ) मद्-मद्-भ-
 पारिन्- -री विप ३, ८७.
 विष्-भ- -भ्यात् विभ १३, ६.
 विष्-द्वन्द्व-सपर्य- -री अण ६८,
 २, १६.
 विष् प (>) -री- पाग ५, ४,
 १३९.
 विष्-वीत- -पाग २, २, ३७.

विष्-पु (>) -वी- पावा ४,
 १, ५५.
 विष्-मारि- -रि. अण ५२, १, ५
 विष्-वत् नाशि १५, १०
 विष्-वत्- -वत् भाषी १, १७,
 ९, कौस्तु ७४, १२, -वत् गोर
 ४, ९, १५, द्राष्ट ४, ४, १
 विष्-वत्-दृष्ट-कर्म- -रैणि कर्म
 १, ५, ९.
 विष्-वद्वा- -वद्वा वृदे ४, ६४.
 विष्-वद्वा-वत्- -वान् लक्ष २,
 १, १११
 विष्-वोगित-दिग्वा(ध-भ)द्-
 ऋ अण ६८, २, २३
 विष्-वेष- -वी निष् १०, १३ ५
 विष्-वा(प अ)व-वस्त- -वम् कौश
 ४८, ३१; ११६, ६
 विष्-वा(प-अ)वान- -वम् वाप २६५
 विष्-वा(प-अ)वाम्नि- -वाम् अण
 ६, १००
 विष्-वा- वा ४, ४, ११, ५, १, २.
 विष्-वाण- -जा कौश्री ४१ ११
 विष्-वा (<स) -वत्-विपजति भाषी ६,
 २, १, २, वाश्री २, १, १, २१,
 विष्-वन्ति भाषी १८, ११, ५,
 कौश्री १७, ११, १६, द्विषी १३
 ४, १७
 विष्-वा (<स) -वत्, विष्-वद्वा कौपि ३,
 १, २
 विष्-वा (>) -वत्- -वो वा २,
 ३९.
 विष्-वा-वत्- -वी वाप १०, २०
 विष्-वा-वा भाषी २, १, ७, ३

विष्-व- -वम् काष्ठ ६३, १८.
 विष्-व-पाग २, ४, ६३
 विष्-वा (<स) म-मा- वा ८, ३, ८८,
 पाग २, १, १७, ४, २, १३८,
 ५, १, १२४, पाग २, ३, १८,
 -मम् भाषी १९, १६, ८, कौश्री
 २४, ३९, ४, द्विषी २२, १, ७,
 शप ३८३, ४०५, कौपि १, ५,
 ६३, काग ३, ४, या ६, २३;
 -मत्स वा ४, १९, -मा अण
 २४, १, १, ५९, १, १५, अण २,
 १ (५), १०, १, ७, १२, ५ (३),
 १५, ५, -मा लाश्री ६, ५,
 १४, २१; निष् १, ८, ७, ९,
 १०, २६, ३७, अण ४१, ३,
 ११, -माणि गोर २, ४, २,
 -मात् द्विषी ३, ८, ६३, अण
 ५२, ५, ३, -मात् अण ५२, १,
 ११, ६८, २, ४५, -मात् वैष
 ३, ९, ८, अण ६५, १, ७, -मे
 काश्री १२, ६, ८, भाषी १९,
 १६, ८^१, कौश्री ५, ५ १३, २४,
 ३९ १, भाषी ५, ३, १०, १४,
 द्विषी २२, १, ७^१, लाश्री १०,
 १५, ११, निष् ६, १३: २०, ७,
 १० ४, कौस्तु १४१, २३, अण
 ६३, २, २, शप १४५, काग १०
 २, ११, -मेवु लाश्री १०, १४,
 १०, निष् ६, ३ १५.
 विष्-वा- वा ५, १, १२४, -म्यात्
 कौस्तु ४, २, ८
 विष्-वा-ग- -वाय भाषी १, १४,
 १५, द्विप १, ४, ४७, -मे कौश

a) मलो कर्म । b) = २विष्- (द्व वै १) । c) व पावम । d) तद्विषे तेन तेऽप्युत्तर इ दरप
 स्पाने वावा भाषी २१, १२, ३ मत्तमेतन्न मे मत्तम् इति पाठे । e) = उदृष्टः । f) विष् > नाप. (गं-)
 मावयोप्य वाप् प्र. । g) तथा वावा १३, ४, १, ९ काश्री १६, २, १५ सर्वरिषा इति पाठे. । h) नाप । कविपमं
 इत् प्र. वसं (वावा ३, १, १०८) । i) नाप (सर्वस्त-). उत । j) क्वप. । k) विष् । = विष्- इति
 वरिष्ठं टि, निर्गन्- इति देशराट । l) वैर १ इ । m) = पावत्रीऽन्ते-भे-१ ।

३, २, ३२; आपध १, ७, २०; हिष १, २, ७७.

विषय-त्व- न्वात् विष १३, ६.

विषय-पद- न्त्वं श्रुष ३, ८०.

विषय-प(>)रा^{१०} - दा श्रम १, ७, ८; श्रुष ५, ४९; श्रुषा १६, ५३; -दा: नित् १, ४: १८८.

विषय-पदो(दा-न्)त्(र>)रा- २ श्रम २, ८, ४६.

विषय-पन्ध- न्त्वात् विष ४३, १८.

विषय-पाद-ल(क्षम>)क्षमा- १-क्षमा अज १२, २.

विषय-युक्त- -त्ता: नित् १०, १: १४.

विषय-राग-ता^१ - ता श्रुषा १४, १३.

विषय(म-ञ्ज)र्व- -र्वाताम् शरणी ७, १९, १७.

विषय-सम- -मे शीघ्र १७, १८.

विषय-स्य- पाय ७, १, १२४; -स्य: विष ७२, २९.

विषय-स्य- पा ५, १, १२४.

विषय(म-ञ्ज)कपा^२ - कपा नीम् १०, २, ५५.

विषय(म-ञ्ज)नन^३ - ना: अज ४०, २, ३.

विषय(म-ञ्ज)रोहणा(ल-अ) वरोहण^४ - ञानि आपध १, २२, २५, हिष १, ८, ६६.

विषय(म-ञ्ज)र्विस्^५ - र्विपम् अज ६८, २, २३.

विषय(म-ञ्ज)हत^१ - तम् याति १, २९; नाति १, ३, १२; ६, १९.

विषयमीय- पा ४, २, १३८.

विषय^१ - पा ८, २, ७०; पाय ४, २, २८; -य: पा ४, २, ५२; पावा १, २, ६४^१; -यम् अज २१, २, ४; आपध १, २२, ५; हिष १, ६, ५; -स्य अज ६३, १, ७; -या: वैप २, १८: ५; विष ९६, ९३; -यात् वीध १, १०, १८; -ये माथी ५, १, ६, १५; नित् २, ४: १५; अज ७०^१, ११, १७; आपध २, २५, ११; १५; विष: श्रुषा १७, ३^१; -येण पात्रवा १, ९; -येभ्य: अज १३, ३, ३; -येषु शेषि २७९.

वैषय- पा ४, २, ३८.

विषय- -स्य पावा २, ३, १६; -यात् पावा ४, १, ६०; -ये पावा ३, १, ४६^१; ३, २०; ४, २, ९२; ७, १, १६^१; ३, ९२.

विषय-त्व- न्वात् पावा १, १, २७.

विषय-विषया- -क्षायाम् पावा ४, २, ५२.

विषय-परिगणन- -नम् पावा ६, ४, १४९; ८, २, १०७.

विषय-मासि- -सी विष ९६, ३६.

विषय-सेवन- -नात् विष ९६, ३६.

विषय-स्य- -स्ये शीघ्र १६, ३२.

विषय(म-ञ्ज)नगम- -नात् शीघ्र १, १, १३.

विषय(म-ञ्ज)भिधान- -ने वा ४, २, ५२.

विषय(म-ञ्ज)गम- -नान्तं अज ४

विषय(म-ञ्ज)र्व- -यम् वा १, १, ३; ३, १, ९२; ४, ४, २०४

वि-पयिन्- वि^१वि^२ ३.

वि^१प(<)ह^२ - वि^१वि^२ शरणी १८, १९: ५; शीघ्र २, ४, ५; श्रुषसदन्त^३ पाय ३, ३, ५; आसिण ३, २, ६: ७.

वि-पयिन्- -ही अज ४६, १: २७^१ २.

वि-पयिन्- -हान् अज १६, १: -हान् अज १०, २.

विषा- पाठ ४, ३६.

विषायाण, णा^१ - पाठो २, २, ११५, पाय २, ४, ३१; -णया शरणी १३, ७, १६^१; माथी २, १, ९, ११; ३, ४१; हिथी ७, २, १७, १०, २, ३०; ५, १^१. -ण्यत् माथी २, १, २, १०; -णे अज ४८, ६०^१; -ण्ये शरणी १०, १०, २; १३, ७, १६; माथी १०, ६, १७; माथी २, १, २, १९; शीघ्र १२, ९: ७; हिथी १०, ३, १२, -णेन अज १, ४४, ४; ४५, ६.

विषायाण- -ण्यो शेषी १६, २२: ११.

विषायाण-पाठ- -ता: अज ७०^१, ११: १९.

विषायाण-वर्ज्य- -वर्जा: विष ८०, १४.

a) वस.। b) = गृहतीक्ष्णो-वेत्-। c) = छन्दो-विशेष-। द्यादा: इति सूको.। d) = वक्तव्य-उप. = उच्चारण-। e) वस. > वस.। f) = दोष-विशेष-। g) कत.। h) वस. > वस.। i) = पाठदोष-विशेष-। k) = मध्य-। l) वृ. पाय.। m) वा. (इन्द्रियार्थ- देह- [पाठ. २, ५२ प्रथ.])। न्यु ? < वि^१वि^२ इति प्राकोशदा। o) उप. ताच्छीले कि: प्र.। p) वस. शी १९, २३, २७ विषा^१ इति वामे.। q) वैप १ ३।

विपाणा(रा क्र)म- -मम् अथो १२,
 ७
 विपाणा-विषम- -म मीस् ११,३,
 १३
 विपाण प्राप्तन- -मम् मीस् ११,
 ३,१२
 विपाणा वत् मीस् ६,२,७
 विपा(ण र>)गिक्त- -काम् अथ
 ३६७,३
 विपाणिद्- -गिन अथ २०,२,२
 रवि पाण- वि/पो द्व
 वि पादिन्- -पाय वि/पद् द्व
 वि पाय वि/पो द्व
 विपाविपारम् वाधुश्री ३,१०५ ३
 वि/पि(वन्धने)>वि पदिन्- पाय
 ३,१,१३४
 वि वि- वा ८,३,७०
 विवित्र ग्रन्थि- -मिनी भाधो
 १२,६,९
 वि/पि सिच्,>डच्, विमिन्वेत्
 वामिद् २१,३:८.
 वि वि(रु>)का- -कामु भाधो
 १४,१७,३, द्विथो १५,५,३
 वि विन्धत्- -खद् भाधो १३
 १५, १३, वीथो ५ ४ ११,
 भाधो ८,३,९, वैथो
 वि विच्य भाधो १३, २१, ३१.
 वि विच्यना(र>)ना- नया भाधो

८,२,११, द्विथो ५,१,३७
 रविपित- त या ४३, १२, १८,
 -वे द्राधो ७,१ १३, लाधो ३,
 १,१३
 वि/पि(<सि)व्, विपोग्रति या
 १७
 विविष्टि- निप २, १४१
 विष्- पाय १,४, ५७६, -वो वामिद्
 २,७, ५ १४^३
 विष्-ना- पावा ५,२,१००, -पूण
 क्रम ४८, ११५, निष ४, १,
 -गस्य या ४,१११^१
 वृविष्णु रूप,पा- -मम् वीथो १८,
 ४१ ४^१, -वा नया ३,१, ७^१,
 -वा वीथो ४,९ १५^१, -डवामि
 भाधो १७,४, १०, वैथो १२
 ५ ५, द्विथो १२,१,४१, -वे या
 १२, १७, वैत्रा ४, ११, -वेष्णु
 या ११,२३^१
 विष्-व- पावा ५, २,१०९^१, -वे
 वामिद् २, ५, १ ६, ६ १२,
 ७,६ २२
 विष्णु द्वय- -मम् विष ७७,२
 विष्णु वृत् व- -पूवत् भाधो ७,
 ४,४,१२,१५, भाधो १२,९,८,
 १७, १५,२, २६, १८, १७, ५,
 भाधो, वैताधो ३२, १५, ४१
 ६, -वता भाधो २२, १३,

२१, द्विथो १७, ५, ४१,
 -वति भाधो १२,६,७, ९,१२,
 ११,१२, १५,३, १०, १७, ८,
 ६, भाधो, -वन्त लाधो १०,
 १४, १, ७^१, -वन्तम् भाधो
 १२,२७, ४, भाधो २४, २, ६,
 ५, ९, भाधो २१, १५, १६,
 भाधो ३,२,२८^१, निव, वेष्णो
 २३^१, -वान् भाधो ८, ६, १,
 १३, ३१, ११, ७, ७, भाधो,
 वेष्णो २३^१
 वैष्णवत्- त वीथो २६,
 १६ १, -तम् भाधो ९,११,
 १२, भाधो १४,२०,३, वीथो
 १६, १३ १०, १४ १२,
 ३६ ११x५, वैताधो ३१,१५,
 माय १,४,१२^१, भाधो २, २२,
 ७, द्विथ १, ६, ७, -ताय वीथो
 १४, १३ ५, ७, १६, १४
 १७x५, -ते भाधो ८,७, २१,
 वीथो १४, १३: ६, १६,
 १४ १२x५, -तेन वीथो
 २६ २७ १२
 वैष्णवीय- -मम् निम् ९,
 १२ २३, १०, १ ६^१, -ये
 निम् १०,१ ४
 विष्णव-समीप- -ये द्राधो ७,
 ४,२५, लाधो ३,४,२३

(a) = श्लोपि विशेष । (b) वस । (c) वि (मैत्रिण, धूमरि) कितान्तर । (योनि, मुद-
 आदिव) । <विष् 'मले' (तु विष्- = रिषा- [तात्पर्यत] सा [देमा ५,२४] य वी [द्राधो] च, वैष्णु ग्रन्थिनामी
 [भाधो] तात्पर्यतास्ये सति < वि/सित- [शुक्र] इतीव, क्रम्ये चाऽसाष्टतत्पर्या सन्त < वि/पि [वन्धने] इति
 वा [तु रक], <विष्णु-नासो] इति वा, वि/पो इति वा [तु तु ११४ प्रथ च] । (d) पृ २२७२ मा ।
 (e) वेपिडि इति लघुशास्त्रीयः पाठ । (f) वैष १३ । (g) वा क्वि । इ पायम । (h) = मयन विशेष-
 (i) पाणि च १ विष्णुस्यम् की ३ १,२ डि । (j) तथा 'या (य १०, १०,२, १२,६ वी १८, १,२, १४ य)
 'या (त १,२,१०,१, ६ ३,११,२ च) इति पाणि । (k) = विष्णव (पालपरिमाण) । (l) इ पायम ४०६ ।
 (m) वचिष् भाधो भाधो वैताधो पाठ । (n) = [प्रवेण] क्रतु विशेष । (o) 'तु' इति पाठ ? क्वि श्लोप
 (इ भाष्पम्) । (p) 'वत्' इति पाठ ? यति नोव (तु भाधो) । (q) = साष्टपरिमाण । (r) विष्
 ([पञ्चमयनमयवर्धित्] अद्-), नाप । स्वार्थान्तये कम् प्र । (s) = साष्टपरिमाण । (t) = वैष्णव- ।

३, ३, ३, आष १, ७, २०, हिष
१, २, ७७
विपम ल्य- रवात् विष १३, ६
विपम-पद^०- नम् लुञ्ज ३, ८०
विपम प(दु>)मा^०- दा ऋञ
१, ७, ८, लुञ्ज ५, ४९, ऋप्रा १६,
५३, -दा निष् १, ४ १८०.
विपमपरो(वा-उ)त्(र>)स-
-रे ऋञ २८, ४६
विपम पन्थम्^०- न्यानम् विष
४३, १८
विपम पाद-ल(क्ष्मन्)>श्मा^०-
-श्मा लञ ११, २
विपम युक्त- न्ता निष् १०, १
१४
विपम-राग-त्वा^०- ता ऋप्रा १४,
१३
विपम(म-ञ्ज)र्व^०- चानाम् शीघ्रौ
७, १९, १७
विपम-सम- मे गौध १७, १८
विपम स्य- पाप ५, १, १२४. -स्य
विष ७१, २९
विपमस्य- पा ५, १, १२४.
विपमा(ग-आ)वपा^०- न्पा गीष्
१०, ३, ५५
विपमा(म-आ)नन^०- ना अष
४०, ३, ३
विपमा(म-आ)रोहणा(स-ञ्ज)
परोहण^०- णानि आष ३, ३२,
२५, हिष १, ८, ६६
विपमा(म-आ)र्चित^०- र्चितम् अष
६८, २, २१

विपम(म-आ)हृत्^०- नम् याति
१, २९, नाति १, ३, १२, ६, १९
विपमीय- पा ४, २, १३८
विपय^०- पा ८, ३, ७०, पाप ४, २,
३८, -य पा ४, २, ५२, पावा
१, २, ६४^३, -यम् अष २१, ३,
४, आष १, २२, ५, हिष १,
६, ५, -यस्य अष ६३, १, ७,
-या वैष् २, १८ ५, विव ९६,
१३, -वात् शीघ्र १, १०, १८,
-ये माश्रौ ५, १, ६, १५, निस्
२, ४ १५, अष ७०^३, ११, १७,
आष २, २५, १९, १५, विष,
ऋप्रा १७, ३^३, -येण पापवा १,
९, -येभ्य अष १३, ३, ३, -येषु
शैशि २७९
वैषय- पा ४, २, ३८
विषय- यस्य पावा २, ३, ३६,
-यात् पावा ४, १, ६०, -ये
पावा ३, १, ४६^३, ३, २०, ४, ३,
१२, ७, १, १६^३, ३, ९२
विषय-त्व- त्वात् पावा १, १,
२७
विषय विवक्षा- क्षायाम् पावा
४, २, ५२
विषय-परिगणन- नम् पावा ६,
४, १४९, ८, २, १०७
विषय प्राप्ति- सौ विष ९६, ३६
विषय-सेवन- नात् विष ९६, ३६
विषय स्य- स्ये गौध १६, ३२
विषया(य-अ)भाषम- गात् गीष्
१, १, ११.

विषया(य-अ)भिधान- ने पावा
४, २, ५२
विषया(य-अ)भ्रमस्- भ्रमति ष ४
विषया(य-अ)र्थ- धेम् पावा १,
१, ३, ३, १, ९२, ४, ४, २०४४
वि-ययिन्- वि^०पि द्र
वि^०व(<स)ह्^०, नृयिपहस्त्व शीघ्रौ
१८, १९ ५, शीघ्र २, ४, ४,
नृय्यसहस्त्व^० पाप ३, ३, ५
आशिष् ३, २, ६ ७
वि-यसहि^०- छै अष ४६, १०,
२७^१
वि-यस्य ह्य- ह्यम् ह्र १२, ३,
-ह्या लु १०, २
विषया- पाठ ४, ३६
शुविपाण, पा^०- पाठमो २, २, १२५,
पाप २, ४, २१, -गता आश्रौ
१३, ७, १६^३, माश्रौ २, १, २,
११, ३, ४१, हिश्रौ ७, ३, २७,
१०, २, ३०, ५, १^३, -गत्
माश्रौ २, १, २ १०, -णे अष ४८,
६०^३, -नृणे आश्रौ १०, १०,
३, १३, ७, १६, माश्रौ १०, ६,
१७, माश्रौ २, १, २, १३, शीघ्रौ
१२, १ ७, हिश्रौ १०, २, १३,
-णेन अष १, ४४, ४, ४५, ६.
विषाण हृत्माजिन- नयो वैश्री
१६, २२. ११
विषाण पाठ- न्ता अष ७०^३, ११,
१९
विषाण-वर्तय- न्त्वा विष ८०,
१४

a) वस । b) = वृद्धतीन्द्रो भेद- । c) = छन्दो विरेप- । पादा इति मूले । d) = नरक-
विशेष- । e) पण > वस । f) = दोष-विशेष- । g) कस । h) सत् > दस । i) = पाठद्वय विप ।
पण उप = वपारण- । j) नाप (सिद्धिपूर्व, देह- [पा ४, २, ५२] प्रश्न) । व्यु^० < वि^०पि इति प्राप्तेः ।
k) = मय्य । l) गु पाप । m) पा ८, ३, ७०, ७१ परासृष्ट द । n) पाप्मे वैष इत्यस्य ह्रि इ ।
o) उप ताच्छी रे हि प्र । p) तथा शी १९, २३, २७ विषा इति पाप्मे । q) वैष १ द ।
r) = पादा वृषिनी- ।

५, १७^३; आश्रित २, ३, ३ : १^३;
 विष्णुत्तु आपश्री २, ६, १; ८,
 ३; २०, २०, १०^३; माश्री;
 विष्णुताम् माशि १२०^३;
 विष्णुत्व या ६, १७^३;
 विषादि^३ ऋषा ५, १२^३; विष्णु
 आपश्री १०, १०, ३; १३, ७, १६;
 माश्री १०, ६, १७; माश्री २, १,
 ३, १३; वैश्री १२, ९ : ८; हिश्री
 १०, २, १३; अं २ : ५९;
 विष्णुत्वम् या ६, १२^३;
 रवि-पा(ख>)या- नृणा कोम्
 ५२, ३; अं ३२, १, १८; अं २ :
 ५८.
 वि-पाय भाश्री २, ७, १३; माश्री
 १, २, ५, २३, ३; ५, १७; हिश्री.
 रवि-पि(त>)ता- न्ते या ९,
 २१^३.

√विष्क^३
 √विष्क^३ बाधा. चुरा. उभ. दर्शने.
 वि०ष्क(रुक्)म् पा ८, १, ७२.
 वि०ष्क(रुक्)म्, म्, व्यस्क-
 म्नाय वीश्री ६, २४ : ३५^३.
 वि०ष्कभि(त>)ता- न्ते वैशि
 २३६; नाशि २, १, १.
 वि०ष्कम्- म्नाय वीश्री ४ : १४;
 -म्नाय माश्री २, ३, ४, ११^३;
 काशु ३, १४; आपशु ३, ६,
 वीशु.

विष्कम्मा(म्-अ)न्त- ग्तयोः
 वीशु १ : १२; १४.
 वि०ष्क(विश्री)>विशि-क-
 नाः वीशु १, ५, १३३.
 वि०ष्क- शत ४, ६, ४; -रः
 आपश्री ९, ३, २२^३; हिश्री
 १५, १, ७१^३; पा ६, १,
 १५०^३; पावा ६, १, १४६^३.
 रविष्ट- √विष्ट द.
 रविष्ट- √विष्(व्याती) द.
 रविष्ट^३ (>वैष्टेय- पा.) पाग ४,
 १, १२३.
 रविष्ट- -रुक्: शंघ ४५७ : १८.
 वि०ष्ट- -ष्ट अथ ४८, १०८^३;
 निष्ट १, ४^३; या २, १४^३;
 -ष्टि ऋषा ८, ४५^३.
 वि०ष्ट^३ पाठ ३, १४५; -यम्
 वीश्री ६, २, १२; १६, ३, ७;
 शीश्री ८, २५, २^३; आपश्री
 १०, ९, ४^३; वीश्री १०, ४२ :
 ८^३; वाशुश्री ४, ५४ : ७;
 वायु १७, ५^३; शंघः
 -वेवाशुश्री ४, ५४ : ८; वीशुश्री
 ३, ६, ३ : २०; ८, ३ : २०;
 वीशुश्री १, १२ : ५; ६ : ५;
 आपशु १, २२, ८^३; हिष्ट १,
 ६, ८^३.
 विष्टपुर^३ (>वैष्टपुरेय- पा.) पाग
 ४, १, १२३.

वि०ष्ट(<स्त)म्, म्, विष्टमोति
 निम् ३, १२ : २२.
 व्य(वि-श)ष्टम्नात् भाशि १२०^३.
 वि...तस्तम्न वैताश्री ३३, १९^३.
 वि०ष्टम्, म्नाय- म्नायः निम् ३,
 १२ : २५; -म्नायि निम् ३,
 १२ : २९; -म्नायौ निम् ३, ३ : १२.
 वि०ष्टम्- नृणाः आश्री ४, १२,
 २^३; आपश्री १७, १, ८; वीश्री
 १०, ३८ : १५; वैश्री १२, २ :
 १५; हिश्री १२, १, ५; वैताश्री
 २१, १४^३; वाष्ट ९, १४^३; गुषा
 ५, ४१; -म्नायः निम् ३, १२ :
 १९; अषा ३, ४, १^३; -म्नाय
 वष १, ८, ३; -म्नाय निम् ३,
 १२ : २४; -नृणाय वीश्री ८,
 १२ : २६; वैश्री १६, १४ : ६.
 वि०ष्टम्(व>)नी- नीम् गुषा ५,
 ४१^३.
 वि०ष्ट- -ष्टार- वि०ष्ट द.
 वि०ष्ट- वि०ष्ट द.
 विष्टि (वमा.)- पाठो २, १, १८९^३;
 आश्रित २, ७, ६ : २४^३; आज्यो^३
 ४, ५; ५, १८; -दिता^३ आज्यो
 ५, ११; १२; -ष्टः आज्यो ५,
 १७^३.
 वैष्टिक- कम् शंघ २५२.
 विष्टि-गुण- ष्टे आज्यो ५, ११;
 १४.

a) पाठे. वैशु १, २१९१ h द.। b) = सवा. मा २७, २० प्रष्ट.। ष्ट २, ४०, ४ तु विष्णुताम् इति पाठे.। c) वैशु
 १६ द.। d) ष्ट ८७५ तु द.। e) √वैष् इति BPO.। f) पा ८, २, ७७ पराष्टः द.। g) पाठे. वैशु २ म्नायः
 मा ५, १६ डि. द.। h) = वृत्त-व्यास- (प्रहाणविशेष-) इति भाष्यम्। i) = [उत्तमरुक्] काष्ठ-विशेष-।
 j) सवा. अशु विष्कम्ने च<> अक्षविष्कम्ने इति पाठे.। k) = विष्णु-। वे. दाश्यांश्च द्विरुक्तिः। l) पाठे.
 वैशु १, १८२२ तु द.। m) = अक्षि-विशेष-। n) = पक्षि-। o) म्नाय-। p) विष्टेय- डि. द.। q) पाठे.
 ष्ट १५८२ ता द.। r) = महिमद- इति भाष्यम्। s) म्नाय-। विष्टपर- इत्यन्यः (शु. पाठः)। t) पाठे.
 वैशु १ विष्कम्ने. वै १५, २, ३ डि. द.। u) सवा. मा १५, ६ प्रष्ट. विष्टम्ने इति पाठे.। v) सवा.
 वैशु ३, ४, २ विष्टम्ने इति पाठे.। w) = [अवेतन-] कर्म-वत्-। x) = [विष्टिकरणुपा-] विधि-।
 y) = पराश-विशेष-।

विपुवर्-स्तोम^{ab}- -म आश्री
 १०, १, ३
 विपुवर् स्थान- ने आश्री १२,
 ३, ४, ५, ४, काश्री २४, ७, ३१,
 निम् ९, १२ ९
 विपुवर्स्थानीय- यः निम्
 ९, १० ३६, -यस् निम् ९,
 १२ २१
 विपुवर् अर्थ- येन निम् ९,
 १३ ४१
 विपुवर्-आदेश- -येन निम्
 १०, १२ ७, १३
 विपुवर् वर्ज^c- -यं आश्री १०,
 ५, ७
 विपुवर्-वत- -जयो द्राश्री ९,
 २, १२, लाश्री ३, ६, १२^d
 विपुवर् म^e- -यष काश्री
 २४, ३, १५, १६
 विपु विप्वर^f - > २ गालवाद्
 कल्विङ्ग इव हस चक्रमाक भास-
 कायस परावत-कुरर सातङ्ग-पा-
 ण्दुवपोत प्रौञ्च प्रकर कङ्क गृभ
 श्वेन-वक-बलाक-मद्गु टिडिभ
 मा-धल नकश्चर दार्वाघाट चटक
 रैकातक-हारीत-राजरीट प्रास्य
 कुम्भट्ट शुक्र शारिक-कोकिल
 मन्वाद्- -र्याद् वाध १४, ४८
 वि(ि पु>) पूवृ^g- -इह लाश्री
 ३, ११, ३^h, -कुहम् आश्री ५,
 ३, २२ⁱ
 वि(ि पु>) पूवृ^g- -इ द्राश्री
 १०, ३, ८^j
 विपु-वर्- विपुवर्- द

वि(ि पु>) पूवृ^g- -इव ऋषा ९,
 १०^k
 विप्व(पु प्र) च्, च्- पाग १, १,
 ३७^l, ५, १, १००, -पूव अत्रा
 ३, ४, १^m, -पूवक् आश्री ३,
 १३, १२, वीश्री १३, ४३ : २५,
 माश्री, -पवृ वीश्री ३, ९ १५,
 -पवृ शश्री १४ ३८, २, ३,
 गौध ११, ३२, ऋष १, १९,
 १९, ३८, -पवृश्च वीश्री १,
 १९ : २५, माश्री ३, ६, ७ⁿ,
 -पवृश्चो शश्री १२, २४, २^o
 विपूची- ची आश्री १०,
 ८, १४, माश्री २, १, २, २२,
 वाश्री १, ३, ६, १, द्विश्री, -पूची
 वीश्री १०, ३५ २४, वैश्री १८,
 २०. ६५, ६६, अष १, २६, ६,
 या १४, ३, -चीश्च वीश्री १३,
 १७. ९, १८ ४, -च्यो वैश्री
 १०, १६ १५, सु २४, ३^p
 विपूचि(क) का^q- का
 माश्री ५, २, ११, २०^r
 विपूचिमा स्तुति-
 ति शुभ २, ३७२
 विपूचीन, ना^s- नम् आश्री
 १३, ७, १६^t, १६, २७, २२,
 द्विश्री १०, ५, १^u, ११, ७, ६३,
 -ना या १४, २३^v, -पूनात्
 वीश्री १ १९ १६^w, माश्री ३,
 ५, ११^x, अश्रा ३, ४, १, -नानि
 आश्री १६, २७, ८, द्विश्री ११,
 ७, ५८
 विपूचीन शा(सा)> ऋ^y -

-ळ वीश्री १८, ४८ २२
 विपूचीन-नाला- छे वीश्री
 १८, ४८ २४.
 विपूचीन(न श)प्र^z- -नाद्
 आपर १७, १
 विप्वक्-सेन^{aa}- -०न^{ab} निष १,
 ५४, ९८, ८७
 विप्वक्सेना(न-श)सुंन- पाग
 २, २, ३१
 विप्वक्-प्रश्र^{ac}- -आन् माश्री ४,
 ३, १७
 विप्वक्-वद- -इ वाश्री ३,
 ६९ ३८
 विप्वक् वन्ध- -येन आपश्री
 २०, ३, ६, १४श्री १४, १, ३०
 विप्वक्-व्यात^{ad}- त वीश्री २४,
 २७ : ७,
 विप्वक् वृत्^{ae}- वृत् वीश्री ९
 ९ १४^f
 वि पुस- वि✓पाद्
 वि✓पू(<सा, प्राणिप्रभे) > वि पूति
 पा ८, ३, ८८
 विपूचिका- , विपूची- , विपूचीन-
 विपु- द
 वि✓पे(<ते)द् पा ८, ३, ५०
 वि✓पो(<सो), विप्वते वीश्री ७, ११
 ३, ८, १४. ७, द्विश्री २ ५, १५,
 विप्वति वीश्री १, २०. ३६,
 माश्री २, ५, १२, माश्री १, ३, ५,
 २८४४, वैश्री, विप्वति माश्री
 १, ७, ४, ४२, कृतिवति
 आश्री ३, १०, ६, ८, ८, १४,
 १३, २०, १२, वीश्री, माश्री १, २.

a) = एवाद् विशेष । b) यस । c) 'वृग्' इति पाठ २ वनि तोष (द्व शश्री) । d) = विप्वर- ।
 e) विप. । वस (द्व एव प्रश्) । f) परस्पर पाठे । g) स्या तां १, ३, ३ विपुवृहस्य इति पाठे ।
 h) वैप २, ३४ द । = नालिक- इति घनी । i) वैप १ द । j) द्व पागम । k) पाठे पृ ४१२ । द ।
 l) = विपुद् विशेष- । m) स्या वा ३, २, ७ विपुचीना इति पाठे । n) = विपु- । o) विर- इति जर्म १ ।
 p) विप । उम ।

५, १७^०, आश्रित १, ३, ३ १^०,
 विविधतु आपथी २, ६, १, ८,
 ३, २०, २०, १०, भाषी,
 विष्यताम् माशि १२०^०,
 विष्यस्व मा ६, १७^०,
 विषाहि^० ऋषा ५, १२^०, विविध
 आपथी १०, १०, ३, १३, ७, १६,
 भाषी १०, ६, १७, माथी २, १,
 २, १२, वैथी १२, १ ८, द्विथी
 १०, २, १२, अप २: ५९,
 विष्यत्वम् मा ६, २२^०
 रवि-वा(ख>)ण- पुंण कौस्
 ५२, ३, अप ३२, १, १८, अप २
 ५८
 नि पाष भाषी २, ७, १३, माथी
 १, २, ५, २३, ३, ५, १७, द्विथी
 रवि थि(त>)ण- ऋे वा ९,
 १९^०
 √विष्क^०
 √विष्क^० वाषा जुवा उभ दर्शने
 वि०ष्क(रुड)म् पा ८, ३, ७३
 वि०ष्क(रुड)म् म्, व्यस्व
 म्नात् वीथी ६, २४ ३५^०
 पविष्कभि(त>)ण- ऋे वैथि
 २३६ माशि २, १, १
 विष्कम्भ^०- म्ना वीथु ४ १४,
 -म्भस्व माथी २, ३, ४, १९^०,
 पाण्ड वे १४, आपथु ३, ६,
 वीथु

विष्कम्भा(म्भ-अ)त- ऋथो
 वीथु १ १२, १४
 वि०ष्क(विष्को)>विवि प कि-
 ना वीथ १, ५, १३३
 वि०ष्क- ऋत ४, ६, ४, -
 आपथी ९, ३, २२^०, द्विथी
 १५, १, ७१^०, पा ६, १,
 १५०^०, पावा ६, १, १४६^०
 रविष्ट- √विष्ट ऋ
 रविष्ट- √विष्(न्वासी) ऋ
 रविष्ट^०- (>वैष्टेय- पा) पाण ४,
 १, १२३
 रविष्ट- ऋदि शप ४५७. १८
 वि०ष्क^०- ष्ट् अप ४८, १०८^०,
 निष् १, ४^०, वा २, १४^०,
 -ष्टि ऋषा ८४५^०
 विष्टप^०- पाठ ३, १४५, -वम्
 वीथी ६, ३, १२, १६, ३ ७,
 शीथी ८, २५ ३^०, आपथी
 १०, १, ४^०, वीथी १०, ४२
 ८^०, वाधुथी ४ ५४ ५,
 वाथ १७, ५^०, शप,
 -वेवाधुथी ४, ५४ ८, वीथानि
 ३, ६, ३ ३०, ८, ३ २०,
 वीथि १ १२. ५, ६ ५,
 आपथ १ २२, ८^०, द्विष् १
 ६, ८^०
 विष्टपुर^०- (>वैष्टपुरेय- पा) पाण
 ४ १, १२३

वि०ष्क(<ल)म् म्, विष्टम्नोति
 निष् ३, १२ २९
 व्य(वि-अ)ष्टम्नात् भाशि १२०^०
 वि * तत्तम्भ वैताथी ३३, १९^०
 विष्ट^०, व्या- व्या निष् ३,
 १२ २५, -व्याणि निष् ३,
 १२ २१, -व्यौ निष् १, ३ १२
 विष्टम्भ^०- पुंम्भ आथी ४, १२,
 २^०, आपथी १७, १, ८, वीथी
 १०, ३८ १५, वैथी १२ २
 १५, द्विथी १२ १, ५, वैताथी
 २१, १४^०, वाए ९, १४^०, शुभा
 ५, ४१, -म्भा निष् ३, १२
 १९, अषा ३ ४, १^०, -म्भात्
 पत्र १, ८, ३, -म्भात् निष् ३,
 १२ २४, -पुंम्भाव वीथी ८,
 १२ २६, वैथी १६, १४ ६
 विष्टम्भ(>)नी- नीम् शुभा ५,
 ४१^०
 विष्टर- ष्टर- वि०ष्क ऋ
 विष्टव- वि०ष्क ऋ
 विष्टि (पत्रा)- पाठो २, १, १८९^०,
 आश्रित २ ७, ६ २४^०, आश्रितो
 ४, ५, ५ १८, -द्विष् आश्रितो
 ५ ११, १२, -द्विष् आश्रितो ५,
 १७^०
 वैष्टिक- कम् शप २५५
 विष्टि पुण्ड- ष्ट आश्रितो ५ १३,
 १४

a) पामे वैष १, २१९१ ऋ १। b) = तथा मा २७ २० प्रष्ट। ऋ २ ४०. ४ तु विष्यताम् इति पामे। c) वैष
 १६। d) ष्ट ८७५ तु ऋ। e) √वैष् इति ऋषो। f) पा ८ ३. ७७ पठावम् ऋ। g) पामे वैष १ म्भुरकम्ना
 मा ५, १६ इति ऋ। h) = वृत्त-व्यास (प्रमाणविशेष) इति भाष्यम्। i) = [उत्तम्भ-रु] काष्ठ विशेष।
 j) तथा ऋषि विष्कम्भ च (>) ऋषि विष्कम्भो इति पामे। k) = विष्टर-। द्वे दाउपार्थं द्विष्टिक। l) पामे
 वैष १, १८२ तु ऋ। m) = ऋषि विशेष-। n) = पठित्। o) वप। p) विष्टर इति ऋ। q) पामे
 ष्ट १५८२ ता ऋ। r) = गदित् इति भाष्यम्। s) वप। विष्टर- इत्यय (तु पाठम्)। t) पामे
 वैष १ विष्कम्भ वै १५ २, ३ इति ऋ। u) तथा मा १५ ६ प्रष्ट विष्टम्भेन इति पामे। v) तथा,
 वै ४, ३, ४, २ विष्टम्भोति इति पामे। w) = [अदेतन] इर्म ४२-। x) = [विष्टिपण्डित्] तिष्ठि-।
 y) = करण विशेष।

हिथी १५,७, १६^१; भाष्य ५, ६; विविष्टम् गृहे ६, ३०^१; विविष्टेत् आपथी २२, १३, २; हिथी १७, ५, २६^१; विविष्टेत् अप १, १८, २; विविष्टेत् आपथी २४, ११, १०^१.
 विवितरथे^० माथी २, ८, १४, आपथी २, १०, ५; वीथी १, १४: १६; माथी २, १०, ६; हिथी २, ८, २२; विवितरथुः वीथी ८, ३, ४^१.
 विविष्ट-^० -ष्टया आथी ४, १२, २^२; -ष्टा माथी १, १, २, १५; वाथी १, ७, ४, २२; वे, १, १, १६; वैताथी २, १५; अप ३२, १, १९; छट, ११६; वीथ १५, ११; -ष्टा: आथी २, १९, ३२, ४, ६, ३; वीथी; -ष्टाम्^१ आथी २, ८, १४; आपथी २, १०, ५, ११; वीथी १, १४: १५; भाथी २, १०, ६; वाथी १, ३, ३, २९^१; हिथी १, ८, २२.
 विष्टि^० -त्तम् वा २, १३^१; -त्ता: हिथी १२, ६, ६.
 विष्टित-अवष्ट^१ -वा: अप १, १८, १; २१, १; २२, १.

विष्ठा^० -ष्टा भाष्यी २२, १३, ३; हिथी १७, ५, २६; -ष्टाम् वाप ४, ३२; विष ४३, ३९.
 वि√ष्णा(<स्ता)^१
 विष्णु^० - पाठ ३, ३९; पाण ४, १, १००^०; १०४; -ष्णवि^१ वैताथी ४०, १; ४; ४१, २२; -ष्णने ऋषीथी ३, २, २४; वीथी; -ष्णु^० माथी ८, ११, २४^१; वीथी २, २: ४; १४, २: ५; हिथी ५, ३, १०४; -ष्णु: आथी १, ६, १४^१; वीथी; वाविष्ट २, ४, १२: ५; वे, १०, ४: १४^१; वीथ १, १०, १६; वाथ १, २१, १०^१; वाथ ४, २१^१; वेथ २, ९: १७; द्राथ १, १, २५^१; अप १, ४, १^१; छट, १५^१; गृहे ५, १४८^१; विष ३, १०^१; वा १२, १८^१; भाष्यो ५, १६^१; वेणो ३४^१; -ष्णुना गृहे १, ११७; २, ३; वासि १, ५, १३; -ष्णुम् आथी १, ३, १२; ४, ६, १^१; वीथी; शंघ ११६: ४०^१; ५९^१; -ष्णु^१ आथी ५, २०, ६, वीथी ३, २०, ४; -ष्णुनि^१ आपथी २, १०, ४;

वीथी १, १३: ३६; भाथी २, १०, २; वीथी ५, ८: ३; हिथी १, ८, १८; -ष्णो आथी ३, ८, १^१; वीथी; -ष्णो: ऋषीथी ५, २०, ६; ६, ७, ६, ७, ९, ४; वीथी; आथी २५, १३, ८; माथी ३, ७, १०; ११; वीथी १८, ८: ४^१; वेथ ४, १०: १; ६, २०: ६; अप ५२, १०, ५; अथी १४, २; विष २९, १; वेथ ३, ९, ३; वा २, ७; ५, ७; १४, १२^१; पावा ६, ३, २७; वीथि ३६३.
 वेष्णव^० - पाठ १, १०४^१; -वा: आथी १०, ७, ४^१; वीथी १, ३, १३; २, २४, ७; १६, २, १०^१; वीथी; -वम् आथी १, ३, १३; १२, ७, ११; वीथी; आपथी ७, २, २^१; वीथी ४, १: १८^१; वेथ ४, ८: ४; ५, ३: २; -वस्य आथी १, ८, ८; ६, ११, ५; वाज ७: ६^१; -वा: वीथी ८, ५, २४^१; वीथी २४, ३७: ६^१; भाथी २०, २१, १०; वीथ ३, ८, ४^१; वेथ ३, १७: ४; -वात् वीथी ३, ३, ४, ३२; -ष्णान्

a) ष्ताव् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋ ३, १८, २ आपथी. प्रथ.) ।
 ब) विविष्टित्. इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. जेज्वा १२५, आपथी. च) ।
 c) पाणे. वेप १ विवितरथे का १, १-५ टि. द. ।
 d) पाणे. वेप १, २४०१ ट्ट द. ।
 e) वेप १ द. ।
 f) पाणे. वेप १ विष्णुम् का १, १०, ५ टि. द. ।
 g) वि^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मं. ३, १ टि) ।
 h) वेष्णव इति पाठः? यनि. शोधः (तु. १ टि.) ।
 i) = मसुत्र-विशेष- ।
 j) वस. ।
 k) = विष्- ।
 l) वा १२, १६ परामुष्टः द. ।
 m) विष्णु- गृह- इत्यस्य स्थाने विष्णु-गृह- इति पाठः. पाणि., सुविष्णुवि- इत्यन्ये इति [पक्षे] पाणम. ।
 n) व्यप. ।
 o) विप (आज्ज-). ।
 p) सप्र. विष्णु <> विष्णुनि इति पाणे. ।
 q) ष्णव इति पाठः? ष्णव इति शोधः (तु. वीथी. हिथी.) ।
 r) उच्यते संविरामः ।
 s) सप्र. आप् २, १, ८ सोमः इति पाणे. ।
 t) तु. ज्ञान. ।
 u) = भरखनवा-देवता- ।
 v) = वस- ।
 w) = द्वादशादित्याऽन्यतम- ।
 x) = ववाव्यकरण- देवता- ।
 y) = रसुतिकार- ।
 z) = सवा. मा ८, ५९ प्रथ. ।
 षी ७, २६, १ तु विष्णुम् इति पाणे. ।
 a^१) सश्व. विष्णोः तसाम् <> विष्णुकामात् इति पाणे. ।
 b^१) वि^०. (पुरोदास- चक्र- सुविष्णु- प्रथ.) ।
 वेप १ द. ।
 c^१) = सप्र. तै १, ३, ५, १, ६, ३, १, १ । सश्व. वै १, २, १४^१ तु विष्णवे इति पाणे. ।

आपत्री ११, ११, ६; १; १२,
५; १२, २, १५^०; १४, ४,
१४; बौध्नी ६, २८: ११;
३०^०; ३२^०xx; माथ्री २, २, ३,
३२^०; वैश्री १४, ७: ८; ११^०;
९: १२^०; हिथ्री ७, ६, ५; ६;
२३^०; २४^०xx; ३८^०; वैष्ट ६,
८: ७; विध १, ६५; शुभा ३,
१४; -वाग्नि आपत्री २, १०,
४; बौध्नी; -वे बौध्नी १६,
२८: १५; माथ्री; -अप ३१,
५, २^०; ३३, ४, १^०; -वेध अथ
६७, ६, ६; -वै: वैष्ट ३, १३:
१०; विध २०, ३; वैध २, १३,
२; ३, ८, २.

वैष्णवी^० - फंथी शोथी
५, ७, १^०; काथी २५, ३, १८;
आपत्री १, ११, ७^०; ११, १३,
४, बौध्नी १, ४: १८^०xx;
२५, ८: १४; माथ्री १, १७,
६; ८^०; वैश्री, हिथ्री १, ३,
१०^०; अथां १६, १६^०; वाप
२८, १६; वरे ६, ७१; शुभ
१, ३५; साम १, २२०;
-फंथी बौध्नी ६, २४: १७,
वैश्री १४, ५: ११; -थी.
आपत्री २०, ५, ५^०; बौध्नी
१२, १०: २१^०; २२, १३:
२१; वैश्री १४, ६: ५xx;
-थीभि: थाथी ६, ७, २; हिथ्री
१४, १, ३३; आग्नि २, ५,

७: १७; बौष्ट १, ११, ११;
-धीम्याम् बौध्नी ४, ४: २८;
१४, २६: १५; -वीम् आथ्री
१, ५, ३९; शोथी; वैताथ्री २, ३^०;
आग्नि २, ७, ६: १६; गोष्ट १,
६, ११; वादा १७, ३^०; शुभ १,
३१८; -वीष्णु आपत्री १४, १८,
१४; २५, १०; बौध्नी ११, १३:
१७xx; वैश्री; अथाप ६, ४; ६^०;
-थ्य: शथ २, १, २२; शुभ १,
३२३; -व्या आथ्री ६, ७, ३;
शोथी ८, १३, १; आपत्री २,
६, ११xx; १४, ३३, ८^०; बौध्नी;
हिथ्री १५, ८, ४१^०; -थ्या:
आपत्री २, २०, ४-६; वैश्री
२०, ३१: ६; अथाप ६, ११^०;
-थ्याम् अथां १८, ५; १२,
५; -फंथी कौष्ट १, ४, ३^०;
शांष्ट १, ८, १६^०; गोष्ट १, ७, २०^०;
अष्ट १, २, ३^०; वाष्ट १, २, ११^०;
शुभ १, ३७३; ४, २८.

वैष्णव-द्विती(य>)था^०-
-वाग्नि: शोथी २, ३, १४.
वैष्णव-मन्त्र- -त्रान् वैष्ट
६, ८: ५.

वैष्णव(व-अ)वं-वंम्
आग्नि २, ७, ८: २.

वैष्णव-वरुण->वैष्णववारु-
(य>)थी^०- -मी शुभ १, ५४६.

वैष्णवायन- पाष्ठ, १, १००.
वैष्णवा(व-आ)द्विती- -थी:

आग्नि २, ५, ७: १३.
वैष्णव^०- -स्वे वाष्ट १, १२^०.
विष्णु-कर्म- -मा^० काथी १६, ६, ६;
बौध्नी २२, ४: १४; १५; २५,
६: १७; लाथ्री; -मान् शोथी
४, ११, ६; काथी ३, ८, १०; १६,
५, ११; आपत्री ४, १४, ६xx;
१६, १०, १२^०; बौध्नी; -मे
वैश्री १८, ८: ५; -मेव^०
वाष्ट १, १४, ५; -सै^० बौध्नी
२२, ४: १४; १७.

विष्णुमन्-देवता->व(व>)
व्या- -व्या: शथ १०, ६.
विष्णुकर्म-प्रभृति- -वि माथ्री
१, ८, ६, २७.

विष्णुकर्म-वास्तव^०- -मे काथी
१६, ६, ५.

विष्णुकर्मवास्तव-समाप्त-
-स: काथी १७, १, १.

विष्णुकर्मवास्तव(व-व)प-
स्थान- -मे वैश्री १८, १३: ६.
विष्णुकर्मा(व-आ)दि- -दि
वैताथ्री ४, १८.

विष्णु-गाथत्री- -व्या वैष्ट ३, १०,
२.

विष्णु-ज^०- (> वैष्णव्य-^०)
वैष्णुज-^० पा.) पाग ४, १,
१०५; २, १११.

विष्णु-वास्त(ः) आग्नि १, १, ३:
३१^०.

विष्णु-वास्त(व>)थी- -थ्याम् शथ

a) सथा. भे १, २, ११ वैष्णव्यम् इति पाठे. b) धरुण नक्षत्र-। c) विव. (आहुति, शत्रु-प्रवृ.)।

d) = आतिथ्या-वृष्टि-। e) सथा. 'वी (वैश्रा ३, ७, ४, ११ च) << >> 'व्यौ (मा १, १२ प्रवृ. व) << >> 'व्ये
इति पाठे. f) = वाग्नि-विशेष-। g) नाव. (आहुति-); h) = शत्रु-विशेष-। i) 'वृतीषु इति पाठः।
-वदि. शोथ: (शु. पूर्व स्वल्पम्)। j) परस्परं पाठे. k) विव. (तद्देवता-); मस. l) वैष्ट १६.।
m) सादस्यदेवतीयः ष्यः प्र. उसं. (पावा ४, १, ८५)। n) = विष्णुकर्म-प्रकरण- (वृ. काथी १६, ५, १-२०)।
o) पाठे. वृ २२७७ अ^० द.। p) = मन्त्र-विशेष-। q) = कर्म-व्य-। r) व्यप.। s) तापा. शिष्ट १, ५,
१३ इष्टः इति पाठे.।

१८^१, ६, १
 विष्णु-न्यस्त^१- -इम् शाश्री १२, ६,
 १४, ७, १, ७, ८, २, वृदे ५,
 ९०, -के शाश्री १४, ७, १, ४
 विष्णु प(ति>)श्री^२- -श्री शाश्री ४,
 १२, १, २, -सै शाश्री २, २७,
 ११, शीश्री २४, ११ ७
 विष्णु पद्- -दे विष ८५, ४०^६,
 मा २२, १९^६
 विष्णु प(द>)श्री- पाग ५, ४,
 १३९
 विष्णु-पार्षद- -श्रीश्री आश्रित २, ६,
 ३ ३३, वीष २, ५, २४
 विष्णु पार्षदी- -श्रीश्री आश्रित २,
 ६, ३ ३३, वीष २, ५, २४
 विष्णु पुत्र- -०० वर ४१, १०१
 विष्णु यति- -लि आश्रित २, ५,
 ७ १, वैश ६, ३ ९, -लिम्
 वैश ३, १३ १, -लौ वैश ६,
 ३ ८
 विष्णु-मह^३- -हम् वैश्री १७, ६३
 विष्णु-लोक- -कम् आश्रित २, ४,
 ३ १९, विष ४२, ६^६, -कम्
 अग ३०, ४, ३, -के वैष २,
 १०, ८
 विष्णु-वत् आपश्री १०, ३०, १२
 विष्णु-वहग- -श्री माश्री ५, २,
 १०, ३, अग ४१, ६ ४
 विष्णुवहग देवता- >थ
 (स्य>)शा- -न्या अग्राय १,
 ५^३, ६ ९
 विष्णु वासव^४- -पाग २, २, २१
 विष्णु वृद्ध^५- -सा^६ शीश्रीप २०

१, ३, -दाताम् आश्री १२,
 १२, २, आपश्री २४, ६, ९, वैष
 ४, ३, ४
 वैष्णुवृद्ध- पा ४, १, १०४
 वैष्णुवृद्धायन- पा ४ १,
 १००
 विष्णु संनिधि- -श्री शेष ११४
 विष्णु-सूक्त- -काय वैश ६, २ ८,
 १० २, २०. ३, ७, ६. १०,
 वैष २, ३, ४, -कैल वैश ४,
 १० १२, ६, २. ४
 विष्णुसूक्त-पुरुषसूक्त-
 काव्यम् वैश ४, ११ ८, १२
 विष्णोर् वत^७- -तम् वैश्री २४ ६
 विष्णव(ष्णु व) तिकम^८- -मम्
 वैश्री १६, २२ १४, -मा
 आपश्री ४, १४ १०, -मा
 आपश्री ४, १४, ९, वैश्री १६
 २२ १२, -मै वैश्री १६,
 २२ १२
 विष्णु रुम- -प्रष्ट विष्णु-द
 विष्णुस्तम्म^९- -म्मा वीश्रीप १७
 १३
 वि^{१०}प्य(<स्य>र्षु> वि ष्यर्षमाद-
 तयो वैताश्री १७ ७
 वि-ष्यर्षा- -र्षावाम् वैताश्री १६
 ६
 वि ष्य(<स्य>र्षु)स^{११}- -र्षा तैप्रा ६
 १३१
 विष्णित^{१२}- -त निष ४, ३१, वा ६
 २०४, -तस्य मा ६ २०१
 वि^{१३}प्यु(<स्यु)र्षु> वि प्यु
 (व>)श्री- -श्रीश्रीया २, ४०,

तैशा ६, १३
 वि^{१४}प्यु(<स्यु)ल् पा ८, ३, ७६
 विष्य- -निष-द
 वि^{१५}प्य(<स्य)न्दु^{१६}, विष्यन्दति
 कौस् १३२, ११^१, विष्यन्देत
 आपश्री २, २, ४, माश्री ९, ३, ३,
 ७, ७, ८, ५, हिश्री १५ १, ४२,
 विष्यन्देत् अग्राय १, ५, अग
 ४५, १, ६
 विष्यन्दयति कौस् ४३, १२,
 ६२, १७
 वि ष्यण- -अम् माश्री ३, २, ७^१
 वि-ष्यन्द- -म्ने कौस् ९३, ३९
 वि-ष्यन्दमान- -नम् आश्री ३, १०,
 २४, ११, २०, वाश्री २५,
 २, ८, वाश्री
 विष्यन्म अग्राय ४, ३
 वि^{१७}प्य(<स्य)न् पा ८ ३, ६९
 वि^{१८}प्य(<स्य)र्षु^{१९}, वि ष्यण्वपवृदे ६,
 १३
 षि नि पुत्र- -सम् आपश्री ६, २७,
 १, वैश्री २, १० १५, हिश्री
 ६ ७, ८
 वि^{२०}स पाशा ३५^२ एर गती, दिवा
 पर प्रेत्ये
 वि^{२१}स (>विशि ४-)
 वि स^{२२}वद^{२३} >वि स^{२४}वद- -द वृदे
 ५, १५
 वि स^{२५}स्थित, ता^{२६}- -त शीश्री २०,
 २ ७, ९ -तावाम् आपश्री
 २ ११, २१, वैश्री २० २२ ७,
 -ते काठश्री २३, दाश्री ४, ४,
 २५, साश्री २ ४, १६, वैताश्री

a) = सूक्त विशेष । बस । b) वैष १६ । c) = तीर्थ विशेष । d) = अन्तरिक्ष- । e) अग
 = महम्- । f) ष्योर्लो^१ इति जीस । g) इ पागम । h) ष्यर । i) इ १२२७७ या इ । j) बहु
 <वैष्णुवृद्ध- । k) = साम विशेष- । l) = विष्णु रुम- । m) पा ८ ३, ७६ पराण्य इ । n) पा ८, ३, ७२
 पराण्य इ । o) पा ८, ३, ८८ पराण्य इ । p) इ BPO । q) इ १८०८ ह इ । r) प्रास.
 एष = नन् ।

विसंस्थित संचर- न शांथी ६,
१३,७, काथी ११,१,२७, वीथी
७, ११ २१, २५, १९ ८,
-रा आथी ५, ३, २८, -रेण
आथी ५, १९, ८, ६ ५, २, शांथी
७, ७, ४, -रेषु माथी ५, २, १६,
१८

विसंस्थूल- पाठो २, १, १३, ३,
११०

विसंस्कसेयु^० वाय १०, १७

वि-सं/उद् > विस उज्- -वा अप
५२, १२, ४

वि सदृश- -ता ऋषा ५, २७५

वि-समाप्त- से शांथी ७, १४, २,
वाथी १, १, ६, ८, कौए ५, १, १

वि-समाप्ति- सौ पावा २, १, ६०

वि-समारोह्य वीथी २६, १२ ८, १०

विसरग- -गा वैष १, १०, १, ४,
११, ११६, १३

विसरग पक्ष- क्ष वैष १, ११,
१२, १३, -उम् वैष १, ११,
१२

विसरग पद्य- श्नाम् वैष १, ११,
१२, १३

१ रवि सर्ग- प्रम् वि/सृज् द्र

वि सर्प- प्रम् वि/सृज् द्र

विसा- पावना ७, ३७

वि-सिकता-श(ङ>)ङ्का^० - ङ्का
क्ष ३, ९, १०

? विसर्जिका- का वीथी ३, १ ५,
१४

वि/सृ, विसिसे या १, ८, १९६

वि-सर(ण>)गी^० - वी वैष १,
१, २८५

वि-समं^० - मांणम् ऋषा ५,
२४५

विसि सार- -रे आथी २, १३, ७,
आपथी १९, २७, १०, वीथी

वि-सारिन्-> वैसारिण- वा ५, ४,
१६.

वि-सृत- -गम् नाशि २, ८, १४

वि/सृज्, विसर्जति वैष २, ६ ४,
अप ६८, ५, ४

विसृजते शांथी २, १२,
१२, काथी २, ४, ७xx,

आपथी, विसृजति आपथी १०,
२७, ५, २२, १६, १६, माथी,

विसृजते माथी ८, ६, १३,
विसृजन्ते आथी ६, १२, १२, ८,

१३, २६, २८, शांथी, विसृजति
आपि २, ५, १०. २८५, वैष

५ १ २४, विसृजे आपथी १२,
१८, ८५, वाधुथी ७, ७१ ५५,

वैथी १७, १७ ३, विसृजामि
सु २७, ५, पाय ३, ७, २५,

विसृजामहे^० आथी ६ १२,
१३, आपथी १३, १८, २, वीथी

८, १८ ६, द्विथी ९ ४, ५८,
वैताथी २३ १५, विसृज माय २,

१६, ३५, विसृजन्तस् काथी ७,
४, १४, या ६, १७, विसृजन् >

जा वीथी ८, १० ३, १३, ४०
२, द्विथी १०, ४, ८, आपि २,

५, १० ३६, विसृज सृज वीथी

९, ७ २, वि/सृजामहे^० माथी

२, ५, ४, १३, पाय २, ११, १३,

वि सृजामहे शांथी ८, १०,
१५, विसृजामहे आपथ

२, १२, १०, आपि २ १, ४
९, द्विथी २, ३, १०, वि सृज

या १०, १५, वि सृज
या १०, १५, विसृजते आथी

२, ५, ५, १३, १७, १०xx,
वीथी, विसृजते आपथी १

१३, २५xx, वीथी, विसृजेत्
वीथी २३, ९ ७, द्विथी

३, ३, ७, ९, ४, २४, शांथी
१, १०, ३१, ३, ८, १५, विसृज

जेषु शांथी ९, १२, ११, आपथ,
६, ११, विसृजे वीथी ६, ६ ४

विसृजध्वञ्च वीथी १६ ८
८, व्यसृष्ट वीथी ६२, २१५

विसृजन्ते काथी १२, ४, ३
जैथी २१ २०

व्यसृष्टता या १३, ४, विसृज
मसृष्टत वैताथी ३२, १८, १७,

या १३ ४, विसृज(व्यसृष्ट) द्वे
७, १४१ नम २ १०, ८६,

अम २०, १२६

विसर्जवति वीथी ६, ३१ १७,
वीथी १, ५, २३, वैष १, २०

१६, २ २ २१, १६ ८,
विसर्जयामि वैष २ ९ ५

विसर्जयेत् आप ३, १२, १८,
वीथि २ ३, ३९, ६, १३, अप

विसर्जयथु माथी १, ५, ५, १४

a) = देस विशेष । मस (हृ भाष्यम् आथी ५ १९, ८), वैष विनापर सह उप भाष इति ।

b) शोषार्थं वृ ७ अ द । c) वैष १ द । d) प्राप्त पूष = नम् । e) = वोगि विशेष- । f) उप = शिक्षा इति ० ३ । g) पक्ष इति ० ३ । h) वस > पक्ष । i) अर्थ व्यु न १ । j) = क्लापा इति सूची ।

j) वृ २२२१ वृ, १ द । k) तथा 'मदे <> 'महे इति पाठे । वृ ११३९ वृ अपि द । l) पाठे वैष १ परि भुवसृज ऋ १, १८९, ५ डि द । m) शोषार्थं वृ १९३९ वृ द । n) पाठे वैष १, १८४२ अ द ।

o) = तथा श्रु ५ ३२, १ । कौ १, ३१५ वृ वि सृज् इति पाठे ।

वि-सर्ग- पाग ५, १, १०१; -र्गः
 शोभो २, १४, ९; छ, ७, ३; ७,
 ३; २०, ११; भाष्यो; -र्गि
 शेष ३, ३; ७; १०; ६, ११;
 ३; श्रे ४, ३८; -र्गात् शोभो
 २१, ९; २५; १०; २; २८,
 १; २९; -र्गे शेष २, १, १६.
 विसर्गिक- पा ५, १, १०१.
 विसर्गा(व-ञ)दि- नौ वा ३,
 ४।
 वि-सर्ग- -र्गः शेषि १४; पाणि
 ५; पाणि २, ५, ५; -र्गि शेषि
 ३०; ३२१.
 विसर्ग-लोप- -यः पावा ८, ३,
 ३६।
 विसर्गा(र्-ञ)नुस्वार- नौ उस्
 १, ६.
 विसर्गा(र्-ञ)न्त- -न्तः
 वाशि १, ७०; -न्तौ भाशि ५५.
 वि-सर्ग- -न्तम् काशो ७, ४, १८;
 शोभो १, ६; १६१; भाषी १,
 २१, ५१; शेष ३, १३, ३; ८;
 भाष्य; -न्तत् काशो २, १३, ७;
 -ने अत्राय ३, २.
 विसर्ग- -न्तम् वाधुशो ४,
 ३२; १३; -न्ताम् शोभो २१,
 १५; ३५; -न्तम् ३; १;
 -न्तानि आपशो ११, १६, १५;
 शोभो ६, ३०; १५; द्विषो ९,
 २, ११; -ने शेषो १४, १४;
 १५; द्विषो १०, ८, १३, ३५;
 -नेषु द्विषो १०, ८, ३०; -नौ
 द्विषो ७, ८; १७.
 विसर्जन-जाल- -जाल
 काशो १४, ८, ८; द्विषो १०,
 ८, २९.

विसर्जन-होम- -नात्
 द्विषो १०, ८, ३२; ३५.
 विसर्जनहोम-यत् शेषो
 १६, ६; ६.
 विसर्जन-कर्मन्- -र्मां वा १०,
 ९.
 विसर्जनीय- -यः काशो १,
 ५, १०; काशो १, २, ९; द्विषो
 २१, २, ३४; अत्र ४७, १, १०;
 १८; अत्राय; -यम् अत्राय ४,
 ७७; १४, ३०; ३३; श्रुपा ३,
 १४०; प्रत्य ३, ६, २; पाणि २,
 ६, १०; -यस्य अत्राय ३, १, १०;
 ३, ४; ७; शेष २, ४०; शेषि
 १२३; पा ८, ३, ३४; -याः
 पाणि २, ६; -यात् अत्राय १२,
 १; श्रुपा ४, १०७; -ये उस्
 ५, २; पाणि १२, ५.
 विसर्जनीय-विह्वाम्बुलीयो-
 (य-ञ)यध्मानीय- -याः पावा
 ८, ३, ३७.
 विसर्जनीय-विह्वाम्बुलीयो-
 (य-ञ)यध्मानीया(व-ञ)नुस्वार-
 नासिचय- -स्वानाम् तेषां १,
 १८.
 विसर्जनीय-प्रतिषेध- -धाः
 कावा १, १, ५१.
 विसर्जनीय-यत् अत्राय ४,
 ७४.
 विसर्जनीया(व-ञ)देहा- -नौ
 पावा ८, ३, ३७.
 विसर्जनीया(य-ञ)नुस्वार-
 नौ अत्राय १८, ३४.
 विसर्जनीया(य-ञ)न्त-
 -न्तम् श्रुपा ७, ६; ७; -न्तः
 अत्राय २, ३, ९.

विसर्जनीय- -यः श्रुपा ४, ३५.
 विसर्जनीया (य-ञ)
 न्त- -न्तानि श्रुपा ७, ९.
 विसर्जनीय- पा ८, २, ५८.
 विसर्जनीयवा द्विषो १०, २, ६७.
 वि-सृज- -जम् श्रे १, १३; २,
 ५९; -जन्तौ शेषो १५, २८;
 ५.
 वि-सृजन्ती- -न्तः अत्र ५८,
 ४, ९.
 वि-सृज्य शोभो ४, १२, १०;
 काशो ३, ४, १४×४; आपशो.
 वि-सृष्ट, ष- -ष्टः अत्राय ३, २;
 अत्र ४७, २, ६; -ष्टम् कौश
 ३, ९, ५७; शोभ ४, ८, १७;
 -ष्टानि निह् ४, १३; ११;
 -ष्टायाम् शोभो ६, १०; ११;
 २२; २; २४; २; १०, १६;
 १७; भाषो ३, ६, २५; शेषो;
 कृष्णाय ३, १; ६, ८; -ष्टौ
 शेषो ११, २६.
 विसृष्ट-वे(ग>)ना- -नाः
 आपशो १४, २८, ४; शेषो २१,
 १५; ११; द्विषो १५, ७, १२.
 विसृष्ट-वाष्- -वाष् अशो १,
 १३, ३०; ४, ८, २३; शोभो
 १७, १७, ३; काशो ४, २,
 २७; शेषो; -वापि काशो १८,
 ३, ३; आपशो २०, ८, १४.
 विसृष्ट-वत्- -ते शेषो १७,
 ५१; १७; ५२; ११; ५३; १२.
 विसृष्ट(ह-ञ)नि- -निः शेषो
 १, ११; १०.
 वि-सृष्टि- -ष्टिः शेष ११७, २१.
 वि/सृप्, विसर्गवृ आपशो १६, ३४,
 ४; शेषो १८, २१; ३७; द्विषो;

a) = संज्ञा-विशेष-। b) छ. पाणि.। c) पल.। d) शेष १ द.। e) व्य.। f) पागे.

१वि...सर्पत आण ४, २, १०,
 आणिए ३, ४, १: १४, ५, ५
 १०, ७, ४-१६x, वीणि.
 १व्य(वि-म)सर्प: आपथी ५, ९,
 ११; माथी १, ५, २, १२, हिथी
 ३, ३, ३२.
 वि सर्प- (>वैसर्प- पावा.)पावाग
 ५, २, १०३.
 वि सर्पक- -वा: अण ५२, २, २.
 वि सर्पिन्- -रिण: अण ५२, ३, ५.
 १वि सृप्त(ः) वीथी १, ११-३४.
 वि-मृष्य वैताथी १६, १७.
 वि-सृष्ट- वि-सृष्टि- वि√सृष्ट द
 वि^१, विस्त^२- पाठमी २, २, १३४,
 पा ४, १, २२, -स्ताव पा ५, १, ३१
 वि√स्त, स्तु, विस्तृणाति वीथी ९,
 १५: ९, १४x.
 विस्तीवते विध ३, १७
 वि-स्तर^१- न अण २३, १, २, वाघ
 ११, २८, वीथ २, ८, २२, वृदे
 १, ८०, -राव विध ५, १९३, -रे
 अण २२, ३, १, ४४, २, २, वाघ
 ११, २७, वीथ २, ८, २१, -रेण
 आणिए २, ३, ३, २, अण १९३,
 १, १, २२, २, २, वृदे १, ७९.
 वि-स्वार- पा ३, ३, ३३, -रे काहु
 ७, २२, पावा ५, २, २९
 विस्वार घन- नम् वीथी ११,
 ७ १२
 विस्वारघन निम्न- नम्
 वीथी ११, ७: १०.
 वि-स्तीर्ण, र्णा- र्णी कौत् ९०, ४,
 -र्णम् विध १, ३९, -र्णा वीथी
 १०, १५ ३, -र्णाव वीथी २,

६: २९.
 विस्तीर्णे तर- नम् या ८, ९.
 वि स्तृत- नम् अण १८, १, ५
 वि-स्थान^१- -ने ऋषा ४, ६.
 वि√स्पष्ट, १वि...स्पादायव्य
 आपथी १५, १९, २; वीथी ९,
 १०-८, माथी ११, १९, १०.
 नि स्पष्ट, षा- पाग ६, २, २४, -ष्टम्
 अण ६१, १, १८^१, वृदे ७, १२३,
 ८, ८८, -षा: निम्न ७, १०-२२
 वि√स्फुट > वि-स्फोट- > ७-
 संभव- -व अण ३५, १, ११.
 वि स्फुट^१- -ट वीथ ४, ९, १०.
 वि√स्फुर, ल् नि√प्सुल् द.
 वि-स्फुलिङ्ग^१- -ङा अण २९, २, २,
 अण ४, ७, २, -ङे सु १८, ३.
 विस्फुरिङ्क- -का अण ६७, ४, १
 वि√स्फूर्ज, विस्फूर्जन्ति अण ६४,
 ७, ९
 विस्फोटक^१- (>वैस्फोटव्य- पा)
 पाग ४, १, १५१.
 वि√स्मि > वि-स्मय- -वा वृदे १,
 ३८, ५७, मांशि १५, ४
 नि स्मित- -त वृदे ५, ६९.
 विस्मित-प्रतिघात- तयो
 पावा ७, २, २९
 वि√स्तृ > वि स्तृव- त निम्न २,
 १-२९, -तम् वाशि २, १००
 ?विस्याप्य- -प्ये अण ४८, ३३
 वि√स्रंस, विस्त्रंसते आपथी ११, १८,
 ५, वि- स्रंसते वाधुथी ४, ८६-
 ६, १४, २१, वि कस्रसत
 वाधुथी ४, ८६ ५, १३, २१
 १विस्त्रंसद् माण १, २२, ६, वाण

५, २१; १विस्त्रंस वीथ ३, ५
 २, वाण ३, ८, ५, वाणिए, वाण
 ४१, १३^१; वीथ २, ५, १५,
 वीथ १, १२-३१^१.
 विस्त्रंसयते वीथी १७, ४० १७
 हिथी १०, ५, २८, निस्त्रंसति
 आपथी २, ८, ३, वीथी १०, १
 १, माथी, विस्त्रंसयत हिथि ५,
 ३१^१, विस्त्रंसयेत् वीथी १४, १,
 ४^१, वीथ १, १९ ६, विस्त्रं-
 येयु वीथी १०, २, १३^१.
 १वि- -वस्त्रंसम् आणिए ३,
 ५, ६: ५, वीथि १, ४: २१,
 हिथि ५ ४.
 वि स्र(सक >) सिका^१- -काम्
 वीथि १, ४ ७^१, -कामा वाथी
 ३, ३, १, ७, हिथी १३, ३, १९
 विस्त्रंसिका-काण्ड- -वडाभाण
 वाणथी १८, ८, १७, वीथी २२
 १६: १०, २४, ८ १४
 वि-स्रसि(न् >) नी- > ७(क >)
 का^१- -काम् वाणिए ३, ५, ५
 ७^१
 वि स्रस्य काथी २, ७, १६, १८, १९
 ४, १, १५x, माथी.
 वि स्रस्य^१- -ससा वाधुथी ४, ७७
 १३, १४^१: ७, १०९ ११
 वि-स्रसव- > ७त स्रस^१- -वानि
 वाधुथी ४, ४० ५
 वि स्रस्य आपथी २, ८, १, ८, १५,
 १x, वीथी
 वि स्रस्यमान, ना- नम् वीथी १४,
 १४: १९, -मानम् आणिए ३,
 ५, ६ ४, वीथि १, ४ २०,

a) = व्याधि (तु PW प्रष्ट) । b) आर्षंशकरणपाठ । वि इति छत्र पाठ द । c) = मान विधिय- ।
 d) भाव । e) बस । f) = अ स्फुट- । g) प्राप्त । h) व्यय- । i) 'अ' इति पाठ १ पनि शोष । j) उत्तरेण
 यधिरार्य । k) सग निस्त्रंस <> विस्त्रंसन् इति पाठे । l) पाठे पृ २२५९ क द. । m) = वीथि-
 निधेय । n) सग 'विकाम् <> पंतिनीकाम् इति पाठे । o) = विस्त्रंसिका- । p) वैप १ द. ।

-नाम् हिपि ५ ३
 वि/स्रम्, स्रम्भयत् लाभौ ५, ६, ७
 वि स्रम् -> स्रम्भयति - नी
 काय २७२ ५
 विस्रम्भ-व् (वँ) वीं - वीं
 आपय २, ५, १०, हिष २, १,
 ११^०
 वि स्रम्भिन् - पा ३, २, १४३
 वि/स्रि, विस्रयौ आपय १, ११,
 ६, आसिष्ट १, ५, ३ १२, वीप
 १, ७, ४४, भाष्ट १, १५ १४,
 हिष्ट १ २०, २, जैष्ट १, २१
 ११
 विस्रि - (> वैस्रव -)
 वि/स्रु, विस्रयानि वीथी १७, ४५
 ५
 वि-स्रयण - ग्रात् या ६, ३
 वि-स्रयत् - ग्रात् वीथी १७, ४५ २
 वि-स्राय वीथी १७, २१ : १६, २०,
 १६ ३१ x, भाथी
 वि-स्रुत् - नाम् अय ४८, ७५^१
 वि/स्रुह - स्रुह निष ४, ३, या ६,
 ३^१
 विस्रयति अय ४८, २३^१
 वि स्वर - न नासि १, १, ४, -रम्
 अय ७३, १०, १, यासि १, २९,
 २, ३१, नासि १, ३, १२, ६, २०,
 -रेण अय ५८, १, ९
 वैस्रय - वीं शीथी १२, १६, २,
 नासि २ ८, ९, - वीं शीथी १२,
 १७, ३, अय २, ५, ५, नासि १,
 ८, ६

विह -> विह गी - पावा ३, २, ३८,
 -गार् अय ६८, १, २७
 विहग द्विजे (ज-इ) ग् - न्द्र
 सु ७, ३
 विहगे (ग-न्) ग् - न्द्रस्य सु
 २४, १
 विह-ग - पावा ३, २, ३८, -गालम्
 नासि १, ६, १६
 विह-गाम - पावा ३, २, ३८, -म
 सु १८ ६, २८, ४, -म सु १८,
 २^६, -मा अय २०, २, ३
 विहगामे (म-इ) ग् - न्द्र सु
 ३०, ६
 वि/हन्, विहये आपथी २२ १३,
 १२, हिथी १७, ५, ३३, वि ..
 हये आपथी २२, १३, १२, वीथी
 १८, ३० १३, २०, हिथी १७,
 ५, ३३, विहमि या ३, ९, १०,
 ११^१, अय ६, २५, नि हन्ति,
 (वि) हन्ति या १०, ११^१,
 वि - अहि आथी २, १०,
 १४^१, आपथी ३, १२, १, २०,
 २०, ७, वीथी, वि (अहि)
 काथी १३, २, २३, आपथी
 ३, १२, १, वीथी, वि .. बहत
 वीथी १८, ३० ११, १९,
 वि हनीय वीथी १८, ३० . ९,
 १२
 विघातयेत् अय ५
 वि-घत् - पा ३, ३, ८२, -न आथी
 १४ ३९, ८^१, आपथी २२, २८,
 २६^१, वीथी ७, १० १^१, हिथी
 २३, ४, ६७^१, नासि ३९^१,

-नाम्याम् लाभौ ९, ४, ३३,
 -ने वैताथी ३९, १५, -नेन
 आथी ९, ७, ३२^१, आपथी ११,
 ५, २, २२, १३, १२^१, भाथी
 १२, ४, १९, हिथी ७, ४, ४४,
 १७, ५, ३३^१, -नी काथी २२,
 ११, १९
 विघतिन् - निना शुभ ३,
 २२४^१
 वि घात - न् अय ३, ९, १६, मीष्ट
 ६, ६, १०, ११
 वि घातिन् - (> वैघात - पा)
 पाय ५, १, १२४
 विघ्न - पाय ५, २, ३६^१, -म वीपि
 २, १०, ७, -मम् आसिष्ट २, ६,
 ३ . २७, अय २६ १, २, मय
 ४३२, वीप २, ५ २१^१, आयो
 १४, ५, -म. वीप १३५, ९,
 -मार् अय ७२ ५, ४, -मनि
 अय ७२, ५ ३
 विघ्न-कृत् - कृद्धि अय ५, ५६
 विघ्न-तन्त्र - (> अविघ्न -)
 विघ्न पार्वद - शम् आसिष्ट २,
 ६, ३ २९, वीप २, ५ २१^१
 विघ्न पार्वदी - वी आसिष्ट २,
 ६, ३ ३०, वीप २, ५, २१
 विघ्न विनायक - का अय ७,
 १, ९
 विघ्नित - पा ५, २, ३६
 वि घ् (>) वी - न्यौ या ९, ४०
 वि-ज्यासत् -> अद्-यद् - न्
 निम् ७, ११ : ११ - अम् निम्
 ७, १११. -ने निम् ७, ११ ४.

a) उपश्रुत्स्व पा मोचने इति । b) पामि वृ १२८२ h द । c) वण । d) सोपार्थ वृ ७२२]
 द । e) पामि वै १ विघ्नयते अ १०, ८५, ३० टि द । f) वृ २२५९ g द । h) = उपश्रु- ।
 h) वैप १ द । i) = विहायत् । j) = पामिन् । k) = मद्यमत् । l) = वृत्तु विरोध । m) नाप ।
 उप अविघ्नये क. प्र (पावा ३, ३, ५८) । n) वृ ११५८ h द । o) = [उपवारात्] घटेत । यदा उप,
 कीरि प्र (दु वैप १ विन्ती) ।

वि-निर्घासा- सया निम् ७, ११ :
 ३४
 ऋविनिर्घासा- सन्त्वापमं २, २१,
 १९, हिद्य १, १२, २
 वि ह्व- सन्त्वापमो ५, १, ७, १,
 -वान् हिथी १६, २, १७
 वि ह्व वीथी ४, ८ २१, १०
 ५x४, वीथ
 वि ह्व- -नु निम् ७, ११. १९
 विह्वल, विह्वलति या ७, १७
 विह्व- विह्वल
 विह्वल- -व. अम २, १०, १२८,
 वृदे ३, ५७, शुभ ४, ३०, अम
 ५, ३, -व्यस्य नाथ ४ ८, ९,
 -व्ये वृदे २, १३०.
 रवि ह्व- विह्वल
 विह्वल, विह्वलति अप ७०, ७,
 ११, ७१, १२, २
 विह्वल- सन्त्वा अप २१, ७,
 ४
 विह्वल- > व्हे (> व्हे/कृ पा)
 पाय १, ४, ७४
 विह्वल (यागे), विह्वलति आपथी
 २१, १२, ३१, विह्वलति पाय
 २, ६, १०, ऋविह्वलत्वा आपथी
 ३, ९, १०, भाथी ३, ८, ११,
 वीथी २४, २९ १६, हिथी २,
 ५, ११
 विह्वल, या १३, १३
 विह्वल- ह्वत्. आपथी १४, २२,
 १०
 विह्वल आपथी १०, १, ६, भाथी

१०, २, ३१, वीथी.
 विह्वल- -न विथ ५२, १५, वृदे
 ७, १५०, -वन्त्वा वृथ १२.
 १२१, अ ३०, १, ६, ७,
 वेज्यो २४
 विह्वल (पदी), ऋविह्वलयाम् वीथी
 १, १५: १७, ३, २८८, माथी
 १, ३, १, १३, वैथी १३ २७,
 ऋवि - वनिह्वल माथी १०, १८
 १०, हिथी ७, २, ८३
 ऋविह्वलित आपथी १७, २१,
 ७, हिथी १२, ६, २६
 विह्वल- पाठ ४, ३६
 ऋविह्वलयाम् - वस या ४, १५,
 -वा. आपथी ३, ८, १०, अ
 ४८, ६८, निथ ३, ३, या
 १०, २६, ७.
 रवि ह्व- पाठमो २, १, ३४५,
 -वस्य: हिद्य १, ११, ११, ११,
 -वसा पाय १, १, २७, -वसि
 पाय ३, १०, २८
 वैह्वलयाम् - स पाय २, २, १२, १२,
 हिथ २, १, ६१, -सम् गोय ४,
 १, १९, आपथ २, ४, ८
 वैह्वलयाम् - सीम् गोय २, ६, ७,
 हाय २, २, २१
 विह्वल- प्रत्य विह्वल
 विह्वल- > वैह्वल- स्य.
 वीथी ३: ५
 विह्वल, विह्वलत्वा ४, ११
 विह्वल (वृथ/वृथ/वृथ), विह्वलति आपथी
 ९, ५, ४, ९, ६, १, ६, १२, ११, ६,

आपथी, विह्वलति आपथी १३
 ५, २२, विह्वलत्वा वीथी २,
 १० ३०, ऋविह्वलत्वा ९, ७,
 ४, आपथी १२, १७, १९, २०
 १३, ३, १, ११, १, १५, ६, १,
 वीथी, पाय १, ४, १६, विह्वल
 आपथी ६, ३, २, ८, २, ३, ६ १६,
 शाथी, विह्वलत्वा गोय १, ६,
 ६, विह्वलत्वा आपथी ११, ७, ११
 १२, ६, ८, आपथी २, ११, ३,
 वाधुथी ३, ४४ ९, आपथ
 ३, ७.
 विह्वलति या ९, ३६, विह्वलत्वा
 वाधुथी ४, १०७ ४
 विह्वलत्वा या ९, ३६, १६
 विह्वल- -वन्त्वा माथी २, ४, ५,
 १९, ५, १, २४, हिथि -वन्त्वा
 आपथ ६ ७, -वो वीथी २० १७
 १६, १९: २७, २१, १८ १५
 २३ १३, वैताथी २१, १५
 विह्वलत्वा (वृथ/वृथ) विह्वलति
 २२ ७.
 विह्वलत्वा (वृथ) भाव- वान्
 मीथ ५ ३, ४१
 विह्वल- सन्त्वा वीथी २, १३, १,
 आपथी १६ ११, १३, माथी
 ६, २, २, ७, हिथी, -वन्त्वा
 आपथ १, २५, ११, वीथ २, १,
 ४१, हिथ १, ७, ७.
 विह्वलत्वा (वृथ) - पाय २, ४, १६,
 -२ आपथी १२, ६, ७, वीथी ६,
 १०, ११, आपथी २४ १, १०,

७) विह्वलत्वा वान् १. ८) विह्वलत्वा इति Dōhā [ZDMG ५२, ८१] १. ९) वस ।
 ८) = ऋवि-विह्वल । ९) सया हिथी १६, ४, ३५ निवृत्ति इति वसि । १०) = सया तैमा ३, ५, ५, ११ ।
 ११) मे १, ४, १३ इति विह्वलत्वा इति वसि । १२) वैथ १ ३. १३) वसि वैथ १ ३ १०, ८२, २ टि ३ । १४) = वृथ ।
 १५) = आपथ- । व्यु १ < विह्वल (पदी) इति प्राथिकम् । १६) परस्पर वसि । १७) वा कवि । १८) वि ।
 १९) तन्माथीव प्र । २०) परस्पर वसि । २१) पृ २१७४] ३ । २२) व्यथ । २३) वसि ३ १०, ८५, ३७ ।
 २४) = विह्वलत्वा- इति पायम. । २५) = देवयजन-देव- ।

काठश्री १६२, बौधो २४, २३
 २, २६, ३३ १८, भाश्री १, १,
 १६, माश्री, मौख १२, २,
 १^०, -रम् भाश्री १, १, ४,
 ३, १०, १०, काश्री ३, ४, २,
 आपश्री १, १२, १२×४,
 काठश्री ३४, ५२, ११०,
 बौधो २३, ८ ११×४, भाश्री,
 लाश्री २, १, २^०, -रम् बौधो
 २१, २ १२, भाश्री ८, ५,
 ६, भाश्री ३, ८, ४, भाश्री, -रा
 आपश्री २२, ११, १३, -राव
 भाश्री १, १, ११, २, ५, १३,
 आपश्री २४, २, १२, बौधो २४,
 ४ ४, २६, १ ४, भाश्री,
 आपश २, १०, ७^०, -रे आपश्री
 ८, ५, ५ ७, १०, ९, १६, ७,
 भाश्री १, ५, ४, १६ ५, ३,
 १५, २७, काश्री १, ५, ६,
 दिश्री, आपश २, १, १^०, आपशु
 ४, १^०, -रम् भाश्री ३ १, १९,
 आपश्री ८ १२, २, दिश्री ५ ३,
 ४१
 वैहारिक^१ - भागि भाश्री १,
 १, ३, ४४^३
 विहार दर्शन - नाम् मौख ७
 ४, २०
 विहार-देश - नाम् जैश्री २२
 १
 विहार प्रकृति-त्व- ध्यात् मौख
 १०, ६, १
 विहार प्रतिषेध- ध्यात् मौख

१०, ६, ७
 विहार-योग^२ - गात् आपशु १,
 १, दिश १, १
 विहार-सयुक्त - का आपश्री
 १४, १५, ५
 विहार सदार^३ - रयो क्रमा १४,
 ३
 विहारा(र अ)न्त् - न्ते भाश्री २,
 १, ३, १८
 विहारा(र अ)न्तर्() वैश्री २०,
 २५ १०
 विहारा(र अ)र्थ - धं^४ गात् १,
 १, ९, वात् ६, ८, -रम् कात्
 १, ११^५
 विहारिन् - रिण दिश १, ३,
 ३६^०
 रवि हारिन्^६ - रिण दिश २, ३,
 ४३
 विहृत ता - त भाश्री ६ ३, १३,
 काश्री ७, १५, ९, १०×४,
 काश्री, -रम् काश्री १७,
 १४, ३, बौधो २७, ११ १७,
 १६, आपश १, ७, १५^७, -रम्
 भाश्री ६, ३, १, -तया बौधो
 १६, ३०. ५, १७, २७ ४,
 -सा काश्री १८, १, २१, काश्री
 २, १, ६, २६, -ता काश्री १२,
 ११, ५, काश्री १२, ६, १६, बौधो,
 -तात् बौधो २४, १४ १,
 -तान् आपश्री १२, १६,
 १६, १३, ११, २×४, बौधो,
 -गानि निस् ८, १ २२, -गामि

आपश्री ३, १३, १५, ९१, १४,
 दिश्री १५, ३, १२, भागि २,
 ७, २ ८, ३, १२, २ ४, -ताम्
 काश्री १८, १, १९, -ताम् काश्री
 १२, ११, १०, -ते बौधो २६,
 १६, १३, -तेन बौधो १६ २७ :
 २२, २६ १८. १०, -तेषु भाश्री
 ५ १९, ७, दिश्री ९, १, २३, -ती
 काश्री १८, १४, ७, आपश्री ४,
 १, ११, बौधो
 विहृत त्व - त्वात् मौख १०, २,
 १७
 विहृता(त अ)नुमन्वन्^७ - श्यो
 आपश्री ४, १, १०
 विहृत्य भाश्री ५, १२, २६×४,
 काश्री १८, २४, २७, काश्री
 विहृत्य^८ - रम् श्यो १६, २,
 लक्ष ५११ वा २ ४१
 वि ✓ ह > विहृत^९ - तम् काश्री
 २५, ५, ३०^३, वात् २७, २,
 वि ✓ ह > विहृत माश्री २, ५ ४, २४^{१०}.
 विनिहृत वात् ४, ३, २५^{१०},
 विनिहृत^{११} भागि ३, ५, ७
 ५ बौधो १, ६ १
 वि ✓ हे, विहृत्यन्ते काश्री १०, २१,
 १६, विहृत्यन्ते काश्री १५, २४,
 १
 वि-रुष^{१२} - पा ३, १, ७२, -रिवेत्
 आपश्री १, १, ४, ४, ८, ६, ६,
 १६, ७, २०, २, २२, ३×४, काश्री
 वैह(व >)वी^{१३} - यो काश्री
 १, ५, ४, २४, २, ३, ४,

a) = [पार्श्वलादि] अभिनय । b) = पदादीनां-विपरीता (श्रु एवा ६, २४) । c) = पदादीनां ।

सप्र दिश १, ३, ३६ विहारिण इति पाठे । d) = वल्ल-वर्णन- । e) = देवपत्न-देश । f) तस्यैवमीष प्र ।

g) उप = रज्जु विशेष इति कर्षणं । h) उप = विलार (श्रु व) । i) पारसर पाठे । j) = बालक ।

k) सपा षडसम् (पै १८, ११, ७ तैसा ४, २०, २ ता ९, १०, १ च) <> षुत्तम् (श्रु ८ १, १२ प्रथ प)

इति पाठे । l) वल । m) वैष १ द्र । n) पाठे वैष १ शिष्यवीर्य तै ४, १, १२ ति द्र । o) सपा षि^{१४}

(श्रु १०, १६, ८ प्रथ च) <> षि^{१५} इति पाठे । p) = विहृत्या- । मत्वर्थे षत् प्र, वस (पा ५, ३, ६१) ।

२२^१, -वीम्याम् वाथौ १, १,
२, ४, -वीभिः वाथौ १, १, २,
२५, ५, ४, १, माथौ ६, २, ६, २,
विहवीष^२ -> व्य-सजनीय-
क्यामुनीय- -यानि वाथौ २५,
१४, १७०.

२विहृष्य, व्या^१ - व्य शाथौ
१३, ५, १७, -यम् आपथौ १४,
१९, १०, ११, वीथौ १४, ४
३१, -यवा^० वीथौ २०, १, २३,
३४, -व्यस्य वाथौ ४, २, ७,
माथौ ६, ३, १३, माथौ १, ६, २,
१, ५, १७, हिथौ, -व्यामि^०
वीथौ २०, १०१८, २५, -व्ये
धुस् १, ८ २१, तैषा ११, ३१^१,
-व्येन शाथौ ४, २, १३, माथौ
१, ४, १, १७, ६, २, १८, वैथौ
५, १ ११.

विहृष्य-सजनीय-क्यामुनी-
य- -यानि^० द्राथौ १२, २, ८,
लाथौ ४, १०, ८

विहृष्या(व्य-व्या)दि- द्वीनि
द्राथौ १२, २, १६, लाथौ ४,
१०, १६

वी (वि०√[गौ]), व्येति वीथौ ८,
४ ४, १४, १०१०, १३^१,
पुविपन्ति आपथौ ५ २३, ९,
वीथौ १४, २१ १३,
वाथौ, पाए ३, १, २६, वीष
२, ६, १३^१, पुवि यन्ति आथौ
६, २ ६^२, शाथौ ९, ६, ६^३,
आपथौ ४, ५, ५, माथौ ४, ७,

२; हिथौ ६, २, ६, वीवि १,
१७ : १७^३, व्येपि या १२, २३,
वि...पि या १२, २३^१,
विपन्तु माथौ १, ६, ४, २१^१,
पुवि (यन्तु) साव १, ४५३,
उनिष् ५ - १७, पुवीदि आथौ
४, १३, ४^१, ५, ३, १८^१, आपथौ
६, ८, ६^१, ७, २०, १^२xx, वीथौ
४, ७ : ३^२xx, माथौ ६, १२, १,
७, १५, ७^२, माथौ १, १, १,
२५^१, ४९^१, २, १, २१^१, ४१^१, ६, १,
३^०, ८, ४, १९^१, २, १, ४,
२^०, २, ४, ३४^१, ३, ३,
१६^१, वाथौ, वैथौ १०, १५ :
१३^२, हिथौ ३, ७, ५५^१, ४,
४, २८^२, वैताथौ १८, १४^१,
पुवीत शाथौ ४, १४, ७, काथौ
१७, १, ३, आपथौ, व्यापत्
वाथुथौ ३, ४२ २, १, वीवात्
आपथौ ९, १०, १५, १४, ३१, २,
माथौ ९, १४, ४, ५, हिथौ १५,
३, २५, २७

वि (इतुहि) वस् ३, ११
वीषाय वीथौ १८, ४१ ७,
व्येप्यति वीथौ १८, ४५ ३४
वीषते सु २३, १
२वि यत्- यति काथौ ४, १५, १२,
-यन्तु कथा ८, ३०^१, -यन्ता
वा १४, २३
१वो(वि इ)त- त आपथ १, ६,
१५, हिप १, २, ३८, -ते गोए
२, ८, १, मीत् ४ ३, १९, २२

वीत-दोष^१-येन सप ७०, ८, १
वीत-मत्सर^१-रा, वा २१, १,
८, ७०, २, ३
वीत-रदिमक^१-कै सप ७०^१,
१४, ७
वीत-नाग^१-गात् सप ७०, १०,
५
वीत श्र(सा>)द^१-द्वस्य
वीथौ १८, ४१ १७
वीता(त-अ)र्वि^१- वि आपथौ
२, १९, ११, हिथौ ३, ७, ६
वीता(त-अ)मु^१-सु वाथुथौ
३, १०५ ४
वीतो(त-अ)व्यव^१-व्यव
आपथौ १, १०, २
व्य(वि-अ)य->व्यवत् कथा ११,
६१.

व्यव-व्यव-वान् सुत्रा २, २६
✓वी^० पाषा कथा पर गतिव्यक्ति
नकान्त्यसम्सादनेषु पुवि वि वा
४८, १५ निष २, ६, ८, १४,
वेदि आपथौ २४, ११ ३^१,
पुवीष आथौ २, ८, ३ काथौ
२, ४, ३, मासि ५३ पुवत् काथौ
१, ४, १०, ५ २१, २२^२,
शाथौ, पुवीषाम् आथौ
२, १६, ९^१, १२^१, शाथौ
१, ८, ७, ३, १३, २^०,
२७^१, या ९, ४२^१, ४३
पुविपन्तु वीथौ १, १९ २०^१,
३, २, ६, ७, १७, १८, २०, १५
९, माथौ ३ ५, १४^०, वैथौ ७

a) = (विहृष्यशब्दवतीभिर् श्रमिहृष्येया-) इष्टका-। b) = सूक्त-। गत्वथे प्र। c) परस्पर पागे।
d) = सूक्त-। तैव १ वि हृष्य-द। e) = (विहृष्यशब्दवती) मन्-। f) = (तदाश्व) अतवाक त्रय (= साजो न
तै ४, ७, १२-१४)। g) पागे वैप १ तै ३, ५, ४, २ टि द। h) सपा को १, ४५३ तै १, ४७, ८ वि यन्तु
इति पागे। i) पागे वैप १, ९०१ इ द। j) पागे वैप १ मा ११, १५ टि द। k) सपा वीदि (तै १ १, ९, २ च)
<> (वि मा ६, १६ प्रस च) इति पागे। l) वस। m) उप = प्राण। n) पा १, ४, ७, २, ६, १०, १
पा २, ४, ६, ६, १, ५५ पराष्ट द। o) सपा विपयु(तै १, १, १३, १ च) <> व्यन्तु (मा २, १६ च) इति पागे।

५:१३^०; हिथी २, ४, १२^०; २१, २, २७^०; ६७^०; द्राघ २, १, २६^०; ऋणन्तु आथी १, ५, २३; २४; २, ८, ६०x; शाथी १, ७, १०^०x; काथी ३, ६, ५^०; माथी १, ३, ४, १५^०; ५, १, २, ६^०; दिथी; शुथ १, १२^०; स्पण् ३ आथी १, ५, १५^०; वीहि आथी १, ८, ७^०; २, १४, ३१^०x; ४, ७, ४^०; ५, १३, ६^०; शाथी; ऋवि (<वी)- हि आथी ७, ११, २२; शाथी १०, ५, ४; श्रज २, ४, ४८; वृद ५, ४; ऋवीथम् आथी ४, ७, ४; शाथी १, १४, १९; ५, १०, १८; आपथी; वा ४, १९^०; ऋवि: काथी ६, ६, १४^०; २३, ३, १^०; आपथी ८, १२, ४^०; २२, १९, १^०; वीथी.

ॠवीथ- न्तम् आथी १, १४, १९^०; आपथी २४, ५, ५; हिथी २१, ३, ५; -तस्य आपथी ४, १२, १०^०; वीथी १०, ४९; १२; १४, ७; ६; २६; ११; ११; माथी. वीथ-तस- न्तानि आपथ ६, ११^०. वीथ-वत्- न्तन्तौ वीथी २०, १८:१५.

वीथपथी- न्ती आथी ३,

१४, २०.

वीथवन्-पथा(द-अ)न्त^०- न्तः आथी १, ८, ४.

वीथ-द्वयन्त^०- न्तः श्रज २, ६, १५; शाथ २, ११७; श्रज ६,

१३६;-स्या^० आपथी २४, ६, १; हिथी २१, ३, ७; -थे ऋथीथी ३, २३: १३; १६.

वीथहृन्त^०- न्तस्य आथी १२, १०, १०; आपथी २४, ६, २; वीथीथ ६: ५; हिथी २१, ३, ७; -न्यः श्रज २, १०, ६१; चाथ १, १९०; २, ३३२; ११७४;-न्यम्^० आथी ७, २, १; निवृ ७, ५: ३५; -न्याथ भाव २, ७, ११^०.

वीथहृन्त-स्तोथीय- न्यः निवृ ४, १०: ७; -थे निवृ ३, ४: ३५.

वीथहृन्त-न्य आपथी २४, ६, २^०; वीथीथ ६: ६; हिथी २१, ३, ७.

वीथि- वा ३, ३, १६; -न्यथे आथी १, २, ७; ३, १३, ६^०; १२; ७, १०, ५; शाथी; -न्ती ऊथीका ८२; श्रज २, ९, ६१.

ॠवीथि-हृन्त^०- न्तः वा १४, २७; -न्तम् आथी २, ८, २; आपथी २, ९, १०; वीथी १, १३: २६; माथी; -न्तः आपथी १, ११, ११. ऋणन्त- न्यन्तः निवृ ४, १; वा ४, १९.

वीथि- पाठ ३, ४७.

वी(वि)√(रि)ष्ट्, वीथये काथी १४, ५, ११; १६, ५, १३; वीथी ३, २७: २४; माथी; वीथेव जैथ १, १८; १३; वीथेव जैथ १, १७: १३;

वीथेव गौथ २०, ६. वीथन्ते अप ५२, ८, ४. वी(विन्-रि)थन्- न्तम् मात् १०, ६, ३. वीथगा(ण-ज)न्त- न्तम् वेताथी ११, १४; १५, १५; कौत् ६५, १६.

वी(विन्-रि)थमान- न्तः कप २, ४, ९. वी(विन्-रि)थित- न्तम् काण २५, ४६; -चाथ शुभा ४, १३६; -न्ती विथ १, २७.

वी(विन्-रि)थ्य आपथी २, ६, २; ६, १०, १; माथी २, ६, ११; वीथी. वी(विन्-रि)थ्यमान- न्तः कप ६३, २, ३.

वीथ्य^०- (>वैथ्यायण- वा.) पाठ ४, १, ११०.

वीथ्^०- न्तम् प्राथी ७, ४, १५; आथी ३, ४, १४.

वीथ-मुद्रामुद्धीय- न्तः काथी ७, १४; आथी ३, ४, १३.

वीथ-स्तोथीय- न्तः निवृ ४, ३: ३७.

वीथि, वीथि^०- पाठ ४, ७२. वीथो-दन्त^०- न्तः विप १, ३५.

वी(वि)√(रि)ष्ट्, ॠन्थे(विन्-रि)ष्टन्त^० वीथी १८, १९: ९; आणित २, २, ५: १८; वीथ २, ४, १५; दिव २, ६, १३; भाति २७. √वीड्, ङ्, ऋवीड्याय, > एका वीथ १, १२, ६; वीथ १, १९, ६; वा २, ५; ८, ३४; ९, १२४; वीथये-

a) पाठे. पृ २२८६ ० द. b) छा. स्पन्तु <> स्पन्तु इति पाठे. c) पाठे. पृ २२८६ ६ द. d) स्या. मै ४, ११, ९ तेषा ३, ५, १०, ५। मास १, १, १, २० आथी १, ९, ५ तु विलुम् इति पाठे. e) पाठे. वै १ वीथस्य ते ३, २, ६, १ वि. द. f) यथा. > यत्. g) स्पण्. h) वै १ द. i) वृ. <वीथहृन्त-।

j) क्वाप्यायथे प्र. k) = साम-विधेय-। l) = सर्पविधेय-। m) पाठे. पृ २२१४ m, ० द.। n) = भवि-विधेय- (छ. तेषा ७, ६)। o) मन्ते. छा.। p) पाठे. वै २, १४ वीथये तेषा २, ७, १७, ३ वि. द.। q) वा ५, १६ पण्डित द.।

धाम् वीथी ७, ५; २००.
 वीडित, ता- -तः वीथी ६, ३२; ३;
 २५, १३; ९; श्राप ४, ५४; १६,
 १७; -ता वीथी २, १२; २४;
 गा ५, १६; -ताः अथ १, ४१,
 २०; अथा २३, २.
 वीङ्क, लङ्क, लङ्क- -ङ्क वेताथी
 ३३, १५; अथ ४८, १०३; अथ
 २, १, ६; वृदे २, १४०; अथ २०,
 ७०; निय २, ९; -हुः आथ २,
 ६, ७०; -हुम् आथ २, ११,
 २६; -ङ्क आथ १२, १०,
 १०; वीथी ७, ५; २००; वीथी
 १५, ११; १६^b; द्विथी ८, ३,
 ८^b; श्राप २, ७२; तैषा ४, ३८^b;
 -वी साथ १, २०००.
 वीवीडु-जम्- -जम् आथ ५,
 ११, ६; वीथी २, १६; ३६;
 वाथी ३, ४, २, १६; द्विथी ३,
 ३, ४७.
 वीवीडु(डु-व)ङ्क- -ङ्क आथ १
 १६, २, १०; २०, १६, १३; वीथी
 १०, ४; १३; १५, २४; ८;
 माथी; -ङ्क वृदे ३, १४७.
 वी-ङ्क- वि ✓ङ्क द.
 वीणा^a - पाठ ३, १५; पाथ ५, २, ९७;
 ११६; -णा शीथी १७, ३, ९;
 वीथी २३, ११; २८; -णाः
 वीथी २६, १७; १३; श्राप ११,
 २, १; ३, १९; लाथी ४, १, ११;
 द्विथी १४; १४; कौट ८४, ८०;
 -णाम् शीथी १७, ३, १; १४, ८;
 अथ ६८, २, २६; -णायाम् काथी

२१, ३, ७; तैषा १३, १२०; पा
 ३, ३, ६५; -णे नाथि १, ६, १.
 वीणाकाणप्रदाः वीथी २६, १७; १२
 वीणा-गण-क^a-> वीणागणकिन्-
 -कितः आथ २०, ६, १०;
 द्विथी १४, २, १३; -ङ्क^b कित.^c
 आपथी २०, ६, १३; ८, १४;
 द्विथी १४, २, १६; ३१; -किन्तौ
 द्विथी १४, २, १८.
 वीणा-गण-ग^a-> वीणागण-
 गिन्- -गितः^b काथी २०, ३,
 २; शीथी १६, १, २५.
 वीणा-गाथा-> वीणागाथिन्-
 -थितः कौट १, १४, ११६; शीथी
 १, २२, ११; -थिनौ आथ १
 २०, ७, १; वीथी; -थिभिः काथी
 २२, १; -थिभ्यः द्विथी १०, ४,
 ६७; -थिभ्याम् काथी २०, ३,
 ७; आथ २०, ७, ५; वीथी;
 -थी आथ २०, ६, ५; १४; वीथी
 १५, ८; ७; १; ७; १; वाथी ३, ४,
 १, ३७; ३९; द्विथी १४, २, १७.
 वीणा-चन्द्रना(न-आ)युथा(व-आ)ङ्क-
 गोमय-फल-पुष्पा(व्य-आ)ङ्कनाङ्क-
 गोरोचना-दूर्वाप्ररोह- -हार् विथ
 ६३, ३१.
 वीणा-चन्द्रना(न-आ)ङ्कनाको(क-उ)
 ण्णोपा(व-अ)लंकरण-नुमारी-
 -रीः विथ ६३, ३९.
 वीणा-तृणव- -वेन आपथी ५, ८, २;
 -वैः माथी ५, ४, २.
 वीणा-दण्ड- -दण्डव्य आपथी २१,
 १७, ८; द्विथी १६, ६, ७.

वीणा-दुन्दुभि-सरित- -वे अथ
 २१, ६, ७.
 वीणा-ल- पा ५, २, ९७.
 वीणा-वृत्- पा ५, २, ११६.
 वीणा-वाट^a- -दाः आपथी २१,
 १७, १७; १९, ४.
 वीणा-शब्द- -ब्दे शीथी ४, ७, ११.
 ✓वीणि पा ३, १, २५.
 वीणिन्- पा ५, २, ११६; -विथः
 नाथि १, ६, २०.
 वीथी- वी(वि ✓ङ्क) द.
 वीथी- -ल-जम्- प्रथ. ✓वी द.
 वीतसहस्य-> वीतसहस्य- -स्य
 वैथ ४, ३, ४.
 वीतसहस्य-वत् वैथ ४, ३, ४.
 वीत हस्य- ✓वी द.
 वीथि, थि^b- पाठमो २, १, २०१; -थी
 अथ ७२, १, ६; -थाम् वैथ ३,
 १४, ७; -थौ अथ ७२, १, ५.
 वी(वि >)थी^c- -थीथु वैथ ५, ११६.
 वीथ^a- पाठ २, २६; -थः अथ ७२
 १, ६; -थै अथ ९, १; अ^d ३;
 ४३; अथा ३, ४, १.
 वीथ-विन्दु- -न्दुत् कौट ४६, ४२.
 वीथ्य- -अथय अथा ६, २६^d.
 वी(वि-ई)प्सत्, -प्सा- -प्सा-
 (वि ✓आ)प द.
 वीथ्य-ई- वि ✓ङ्क द.
 वीथ्याण-न- ✓व्ये द.
 वी(वि ✓ङ्क)थ^e, वीथ्यथि वृदे ७, १२६;
 वि^f...थे(वेपाम् वीथी १६, २६;
 १०^g.)
 ✓वीर पाथा.पुत्रा.आत्म.विशान्तौ.

a) वैथ १ द.। b) पाथे. वैथ १, ८५३ इ द.। c) विङ्क इति पाठः? यन्नि. शोधः (दृ. पाठे)।
 d) = वीणापथ्य-न। उव. < ✓के (रन्दे)। e) सप्र. कितः <> गितः (मास १३, ४, २, ३, ४, २) इति पाठे.।
 f) नाथ.। पस. > उस. वप. < ✓ने। g) षौ इति पाठः? यन्नि. शोधः (दृ. प्रवरणम्, शीथ. व)।
 h) = पथिक-न, कर्मन्-। थ्यु. ?। i) = वीथी- (दृ. संस्कर्तुः दि.)। j) पाथे. वैथ १, ८५४ dं द.। k) या १, ७
 पराश्रः द.। l) अथा. अ ६, ६९, ८ प्रथ.। पै २०, १५, ३ वु वि^h...थे(वेपाम् इति पाठे.।

वीर,रा^१- पाठ २,१३; पा २,१,५८;
पाग ४,१,३५; ९,८०^५; -^१र
आश्री ६,२,६; आश्री १४, ३,
८; ५०,२; द्विप; -रा आश्री ९,
७,३२^१; आश्री १०,१०,५^१××;
१६, २३, १४^५; आपश्री; -रम्
आश्री २,७,१२^१; शाश्री ५,६,
१९; १०,१५,८; ^१मापश्री १,९,
१२^५; ५,८,८^५; वीश्री २,१० :
३८××; २५,४०^१; माश्री १,
९,५^१; माश्री^१ १,२,३३^५××;
वाश्री; -रस्य आपसं १, १६,
६^१; -^१राः आश्री ३,११,६^५;
शाश्री ४, ११, ६^५; १०, १५,
८; ११, २३, ६; १४; काश्री
२५, ५, २८^५; आपश्री ७, १७,
२^५; १३, १८, १^५; १४, ३०,
४^५; २२, १८, १३^५; माश्री १,
४, ३, ९^५; वाश्री; आपसं
२, १५, १९^५; शाप ३, ४,
४^५; पाठ १, ३, १४^५;
गाथ २, ११, १८^५; -^१राः
आपश्री १६, १८, ७; २१, ४, १;
वीश्री १६, २८ : १९; माश्री १,
४, ३, १; ३, ५, १२^५; वाश्री;
द्विश्री १५, ७, १९^५; कौट ८८,
२५^५; विप ७३, २१^५; -^१रसः
शश्री २, ७२; १०, ३; उरु २,
१८; -रे पाठ १, १६, १९^५;

-रेज ^१शाश्री २, ८, ६; ७; ८;
१६; २२; वाश्री ४, १० : ५;
-^१रैः आश्री २, ३, २७; शाश्री
२, १२, २; आपश्री ६, १९, ७;
९, १४, १; १३, २५, ३; २१,
१२, ५; वीश्री.
वैर^१- रम् अत्र १२, ५(४)^१.
वैर-कार- पा ३, २, २३.
वैर-निर्घण्टा(न-अ)थं-
-थंम् कौट १, १०, २१^५.
वैर-मैथुनिक- -रयोः पा ४,
३, १२५.
वैर-यावना(न-अ)थं- -थंम्
आप १, २४, १; द्विप १, ६, ५१.
✓वैराय पा ३, १, १७.
वैरेय- पा ४, २, ८०.
वीर-कर्मन्- -मैणे या १०, १९.
वीर-काम,मा- -राः आश्री १०, २,
१६; -मस्य माश्री १, ३, ५, ४;
वाश्री १, ३, ५, ६; -मापै शाश्री
५, ९, १९.
वीर-जवन्- -रम् आपश्री १८,
१०, ७; द्विश्री १३, ३, ४४^५.
वीर-जित^१- -नाय वीर ३, ९, ५.
^१वीर-जन्- -राः शाश्री ८, १७, १;
द्विश्री ६, ७, ८^५; आपसं १, १२,
८^५; पाठ ३, २, ७^५; द्विप १,
२५, १^५; २९, २^५; -मा आश्री
५, २०, ६; शाश्री ३, २०, ४.

वीर-वर- -^१रैः कौट १, १४, ९;
गाथ १, २२, १२, ३, ५, ३^५; पाठ
१, १५, ७; कप ३, ६, ८^५; -रेज
गोथ २, ७, ६^५.
वीरवर-वाङ्कु^१- -ङ्कुना पाठ
१, १५, ४.
^१वीर-रा- -राम् आपश्री १२,
१४, १३; वीश्री ७, ६ : ४९; वीश्री
१५, १६ : ५; -वापै माश्री २,
३, ५, ७^५.
वीर-यति^१- -तिः कप २७, ३^५.
वीर-य(ति>)श्री^१- पा ४, १, ३५;
-श्री कौट ६, १८^५.
^१वीर-योय^१- -यम् आश्री १, १२,
१७; आपश्री २, ३, १; माश्री ९,
४, २; माश्री ३, १, २८; द्विश्री
१५, १, ४९.
वीर-भात^१- -त्वा अत्र ७१, १७, ७.
✓वीरय^१>^१वीरया^१- -रा शाश्री
१०, ९, ४; अत्र २, ७, ९०; ३,
२, ७; वरे ६, १६; १७; छत्र ३,
२३३; २३४.
^१वीरयु- -युः आश्री ७, ८, २;
शाश्री १०, ६, १४; १२, १२, १;
वैशाश्री ३१, २६; ४०, १४, ७१,
७; ८; ४२, १; छत्र.
वीर-यत्- -^१यत् शाश्री २, ४, ७;
माश्री ५, १, १, ३४; अत्रय २, ६;
गाथ २, ३४; -यतः ^१माश्री २, ५,

a) वैप १ द. । b) अर्थ. । c) = [उपन्तारात्] लोम-वित्प- (तु. भाष्यम्) । d) सभा. कौट ८८, २५ तिप ७३, २१ वीरय इति पाठे. । e) सत्र. तै १, ५, २, १ । तां १६, १, १२ तु वैरम् इति पाठे. । f) पाठे. वैप १ सुर्वहापसः कौ १०, ५, २२ टि द. । g) सभा. वीरयः (श्री ९, ५, २ च) <> वीरय इति पाठे. । h) सभा. वाठ ३५, ५ देवाः इति पाठे. । i) वाठः! वीरयः इति शोचः (तु. सभा. आपश्री १४, ३०, ४) । j) परतरं पाठे. । k) 'जन्म' इति वाठः! सति. शोचः (तु. आपश्री.) । l) = श्रुति-विशेष- । m) सभा. 'रत्नमः' <> 'रत्नमः' <> 'रत्नमः' इति पाठे. । n) सभा. शाप १, १९, ६ अष्टमम. इति, कौट १, १२, ६ अष्टममः इति च पाठे. । o) पाठे. वैप १ अष्टममः तै १, ५, १०, २ टि. द. । p) = वृत्त-विशेष- । q) = आप-प-प-प- इति द्विद्वारगदाधरी । r) सभा. 'राम' (भा ७, १२ गारा ४, २, १, ९ प्रम. च) <> 'राम' (मै १, १, १० वाठ ४, ३ च) इति पाठे. । s) सभा. । t) = देवी-विशेष- ।

१७^०, आपथी १६, १६, ४^०,
वायुथी ३ ५८: ७, वैश्री १८,
१४ १५^०, आपम २, ८, २^०,
कौण्ड ३, ४, ३^०, पाण्ड १, १६, १९,
वीर १ ५, ७^०, माण्ड १, १४, ६^०,
वाण्ड १५, १७^०, गो २, १,
-वन्त शाश्री १५, २७, १,
आपम २ २०, ३४^०, आमिण्ड ३,
२, २ ५^०, भाण्ड २, १५, ८^०,
हिण्ड २, १४, ४^०, कौसु ८२, १२,
या १, ७^०, -वन्तम् आश्री ३,
७, १२^०, शाश्री १५, २७, १,
आपथी १७, ३१, ३, आपम २,
११, ६, -वन्ति आश्री १०, २,
१७^०

वीरवती- श्री पाण्ड १
१६, १९, -वी आपम १, १४,
७, गो २, १, -वीम् आपथी ७,
८, ५, माथी ७, ११, ४, हिश्री ६,
२, १७

वीरवत्-तम- -मम् काश्री ५,
१२, १०, काण्ड २२, २

वीर विधवा- -वा वैण्ड ५ ९ २^०

वीर शयन- -ने वैण्ड ६३. ३

वीरन्- -म् पाण्ड १, ४, १६^०,
माण्ड १, १५ १२^०, माण्ड १,
१०, ६^०, वाण्ड १७, १९^०, हिण्ड
१, २०, २^०, गोण्ड २, ७, १२^०,
कण्ड २, १०, ४^०

वीर हन्- -हणम् वाण्ड २०, ११,
-हा वीश्री २५, ४ ६, २९,
८ १८, वाण्ड १, १८

वीरा(र-आ)सन- -नम् अण्ड १,
३, ९, १२, शण्ड ३७२, ३९०,
७७२, -नेन अण्ड १, १, ३
वीरासनम्- -नी अण्ड ७१,
२, १

वीरासन-शक्ति- -विन वैण्ड
१, ८, १

वीरि, वीरयति या १, ७, वीर-
यत्त्व वीश्री १८, १० १८,
१७ १८, अण्ड ३, १, ७^०,
वीरयत्त्वम् वीश्री १७, ४२,
१२^०, आपम २, ९, ६^०, सु
२२, ३६, आमिण्ड १, ३, ५
१४^०

वीर्य- -रि ७७, -यम् आश्री ७,
१२, ११^०, शाश्री, आपम २, ९,
११^०, आमिण्ड २ ६, ६ ११^०,
वीण्ड १, २, २५^०, भाण्ड २, २३
१०^०, कौण्ड ३३ ८^०, -वीर्यम्
शाश्री १२, ५, १५, वीश्री १७, ४
४६, माण्ड ८६, -वाणि
वीश्री ५, १५, २२, २०,
९, ८, ६, १२, शाश्री, वीश्री
१६, २८ ५ अण्ड ५२, १६,
३, -वीर्याय आश्री ६, १२, २^०,
आपथी ९, १८, १५, ११, ९,

१७^०xx, वीश्री, हिश्री ७, ५,
३५^०, -वीर्यं वीश्री ७, २, ४^०,
शाश्री ३, ३, ४^०, आपम २, ११,
१६, सुत्रा २, ३४^०, -वीर्यं
आश्री ६, ४, १०, ७ ८^०, ९
९, ११^०, शाश्री, -वीर्यं
आथी ५, २०, ६, शाश्री ३,
२०, ४

वीर्यं काम- -म आपथी ७, १,
१६, १७, १, २, २२, ६ १३,
१०, ३xx, वीश्री, -मम् हिश्री
१७, ५, १९, -मस्य वीश्री ३, २,
८, १, हिश्री ३, ७, ११ २ २१,
२, ५०^०, -वीर्या आपथी
२१, १, १४, हिश्री १६ १,
११

वीर्यं कृत्- -कृत् आपथी
२२, २८, १४, वीश्री १८, १७
१४, हिश्री २३, ४, ५४
वीर्यं तम् () विण्ड ३२, १८
वीर्यं प्रवा(र>)दा- -दा विण्ड
६, ११ ८

वीर्यं नत्- -वीर्यं पाण्ड २ १०,
२२, वीण्ड ७, ३, ४, जैण्ड १, १४
३^०, सुत्रा १, १६, -वन्त अण्ड
१, ६, ६, -वन्तम् वीश्री ६, १५
११^०, -वन्तौ सुत्रे ५, १५^०,
-वीर्याय आपथी ७, १०, १ वीश्री
२७, १४. ३^०, १८, माथी १,

a) पामे सु २२८९ m द. । b) सपा शी ३, १०, ५ मन्वा २, २, १३ माण्ड २, ४, ४ सुवीमा इति पाम ।

c) तु आन । वीरि^० इति आ १ । d) = वीरशब्दवन्ति । e) पत्त (वैतु माण्डम् मन्वो मत्त पूर <विन्द्रा-
इति (तु ० टि) । f) वैण्ड १६ । g) पामे वैण्ड १ वीरसू अ १०, ८५ ४४ टि द । h) वैण्ड ३ द । i) पाम
वैण्ड १, २४०२ m द । j) सपा शी ५ २५ ८ वै १३, २, १५ । पे ३, ३९, ४ तु वीरयत्त्व इति पामे । k) पामे
वैण्ड १, २४११ b द । l) पामे वैण्ड १, १६५६ f द । m) पामे वैण्ड १, २२८५ b द । n) पामे वैण्ड १
मुच अ १०, ९७, १४ टि द । o) पामे वैण्ड १, ८३० g द । p) पामे वैण्ड १ वीर्याय वी ७, २७, २ टि द ।
q) सपा अ ६, २८, ८ तैत्रा २, ८, ८, १२ । शी ९, ४, २३ तु वीर्यम् इति पामे । r) सपा मा ८, ५९ प्रथ ।
मे ७, १४, ६ तु वीर्यं इति पामे । s) पामे वैण्ड १ वीर्यं कृती का ११, ७, ५ टि द । t) पत्त । u) सपा
वीर्यं नत् (व १, १९ व) <> वीर्याय नत् इति पामे ।

४,१,२७^०,३,६^०, १वाभी १,१,
१,१^०,४,१, सु २७, ३, पाय
१, १४, ५, अय ५२, १०,
३

१वीर्यंती- वी वैश्री
१८,१६ : ५०, वाय २,८, विघ
२९,९, या २,४

वीर्यन्तर- रत्न अक्ष १,
१०

वीर्यां (न-ध) शुक्ल- विषय
(१-आ) ह्वन रामा (वृ >)

व्दा^० - व्दा अय २४,५,३

वी (यं >) वां यत् - ११२२२^०

भाभी १०,१६,१६, ठेपा ३,५

वीर्यांती- १वीः आपथी
१६, ३२, ७, द्विती ११, ८,
११

वीरण पा^० - पाय ४,२,८०^०, -गाम्
गोष्ट ३,९,४, -जे अया १५ १,
-वीः वाय २१,१

वीरण- वा ४,२,८०

वीरण- वा ४,२,८०

वीरण स्तम्भ- स्तम्भ गीपि १,६,४

वीरिण- गाम् कौश १८ १०, -गव्य
कौश २६, २६, -जे कौश १८,
१३.

वीरिण- गाम् कौश २०, १३

वीरिण- गाम् कौश २०, १३

वीरिण- गाम् कौश २०, १३

वीरिण- गाम् कौश २०, १३

वीरिण- गाम् कौश २०, १३

वीरिण- गाम् कौश २०, १३

√वृहृ पाषा भा. पर. वरंते
√वृहृ पाषा भा. उभ निशाने.

वृहृ (> वृहृ-)

√वृहृ पाषा दिवा. पर वरंते

वृगमूल (> वृ-वृ- , वृ- वा)
पाय ५,२,१३६

√वृहृ पाषा द्वा, द्वा उभ वरंते,
१वृहीत वीश्री ३, ३ ४, अया
४,१६२^०.

वृहृते द्विती १६, ४, ३६^०

वृहृमि विप ८६, १५, वृहृते
वाधुशो ४,१८ : २२, ३२, वृहृ-
वाय ३श्रीका १२, अय २, २,
५x४, राय

वृहृते वीश्री ५,१,१, वीश्री २,
१,१७,७,१,७, आपथी २,१६,
६x४, २१, १३, ४^०, वाश्री,
१वृहृते वीश्री १, ३, २३,
वाश्री १,६,२, वीश्री २,१,१८,
आपथी, १वृहृते वीश्री २, ४ २,
४, ७,१०, १३,१६, १९, वीश्री
५ ३,१५,१^०, वीश्री १,१,५,१^०,
द्विती, १वृहृमहा विप २,९ ३२,
१वृहृमहा वीश्री १,२,७,५,१८,
५x४, वीश्री, वीश्री २,१,१७^०,
वृहृते वीश्री १८, १३ १३,
आपथ २, १६, ४^०, सु ३०,
४^०, माय, वृहृते वीश्री ५,
८, ९, वृहृते वीश्री ४,५ : ८, ९,
१२x४, वृहृमहा भाषि २४^०,
१वृहृमहा वीश्री २, ७ ३,
भाषि ८२ १वृहृते वीश्री

७,२७,७, वीश्री १,६ ५,१३^०

३, वृहृ ५,५१९, या १४,१६,
१वृहृते वीश्री ३,३१ ५,१४,
१४-२, वृहृते वीश्री १५,
२४,१^०, वृहृते वीश्री १,
६ ६, ११ ४, १वृहृते वीश्री
२,७७, वृहृते वीश्री २,६, वृहृते वीश्री
२,३ ७^०, १७, १६, ४ ६^०, ७,
२०^०, १३ ५x४, वीश्री, वृहृ-
वाय वीश्री १२६, ९, अयाय ६,
५, अय ३, १, १३, वृहृते
वाश्री २, ४, १९, वीश्री ३,८,
१०, वीश्री १०, २, ४०, वृहृते
वाधुश्री ४,७४ ३३.

१वृहृते वीश्री ६,२ १६,
वीश्री २,११-१३

वृहृते वीश्री ४,२,४, ९६ ३०,
वृहृ ४, ७४, ५, ३३, १वृहृते
आपथी ७,१५,५, द्विती ४,३,
६, वृहृते वीश्री ७,२,६४, १वृहृते
वीश्री ७,८,१, द्विती १२,९,६,
निम् ९, ११ २४; १वृहृते
वीश्री १,४,१०, २, १९, ३, वीश्री
१, ६, १५, ४, ७ १९, भाषि
५५, वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री १,२,२, वीश्री १,
६,४, वृहृते वीश्री २०, ३८,
वृहृते वीश्री ३,३, १ ९, वृहृते
१४,२, माय १,७,४, वृहृते
वृहृते वीश्री > वृहृते वीश्री
वृहृते ६,३८.

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

वृहृते वीश्री ३, २३ :
१५

a) वीरिण वैप १,१७७ पृ ६ । b) वीरिण वैप १,६,२, ६ अयाय इति पाठे । c) वृहृ
> वृहृ > वृहृ > वृहृ > वृहृ । d) वीरिण वैप २२९० पृ ६ । e) = वृहृते वीश्री । f) अर्थ १ । g) = वीरिण ।
h) वृ १०८१ पृ ६ । i) वा ३,३,४६, ७,२,३८ ४२, ३,८०, ८,३, ४४ वरणाय ६ । j) वीरिण वैप २ वृहृते
वृ ५५०, १ पृ ६ । k) वीरिण वैप २ वृहृते वीश्री ३, २३ : १५ । l) वीरिण वैप २, १९ वृहृते वीश्री ३, २३ : १५
पृ ६ । m) वीरिण वैप २, १९ वृहृते वीश्री ३, २३ : १५ । n) वीरिण वैप २, १९ वृहृते वीश्री ३, २३ : १५
पृ ६ । o) वीरिण वैप २, १९ वृहृते वीश्री ३, २३ : १५ । p) वीरिण वैप २, १९ वृहृते वीश्री ३, २३ : १५

२वर,रा०- वा ३,३,५८; -रः शश्री
 ३, १९, ९; छ, २०, ३५;
 काश्री; -रम् शश्री ३, १२,
 ४; शाश्री २, ७, ७; १२, १९,
 ३१^b; काश्री; आपमं २, १५,
 १९; पाण्ड ३, ४, ७; कौसू ७३,
 २१^०; पाण्ड १, १, ३७;
 -रम्-रम् या ५, ४; -रवा
 वीष ३, १, ३; -राः कौसू ६१,
 १५^१; -राणाम् आपश्री २२,
 १, १५; हिश्री १७, १, १७; वैव
 छ, १, २; -रात् वाधुश्री ४, २:
 १२; -रात् आपश्री ८, १३, २६;
 आपश्री १४, १४, ६; ८; २५,
 ४; २७, २; २९, ३; काश्री^१;
 -राम् कौसू ११२, २; २३६,
 १०; अण्ड १५, १, ७; -श्रीशय
 शश्री २, १९, ३२; शाश्री ३,
 १७, १; काश्री २५, ६, ७; -रे
 आपश्री ६, ३०, ४५; वैश्री;
 -रेण वाधुश्री ३, ४१: ३४: ३५^१;
 ३६; ३८^१; ३९; माण्ड १, ३,
 ११; -श्रीरेभिः आपमं १, १, १;
 कौसू १, १, १४.
 वर-वृत्ति- > वरवृत्ति-
 -सिनः वाश्री ३, २, ५, ३५.
 वर-वृत्त^d - वृत्त अण्ड २०, ३,
 १; -वृत्तय वाप २०, ४, २१.
 वर-नाम- -मम् या ५, १, ८, १०.
 वर-तर- -रम् या ८, ९.
 वर-वृ, दा^e - -दम् आश्रित २, ६;
 ३: २९; अण्ड २०, ५, १; ६, २;
 वीष २, ५, २१^१; -दा आश्रित
 २, ६, ८: २१^१; शीष ४१, २,

४; ३, २; शीष ४४१; -वाम्
 अश्री १, ३; ४; विष ७८, २७;
 -०दे अश्री ३, २; छ, ३; ५, ७;
 विष ९९, ६; -श्री अण्ड १,
 ३९, ४^१; अश्री २, ४.
 वर-दक्षिणा^f - -या काश्री १५,
 १, ५.
 वर-दान- -नम् आश्री ३, १२,
 ६; काश्री ४, ८, २४; २०, १, १९;
 २५, ४, १२; माश्री; -नात् काश्री
 २०, १, ११; माश्री ८, २२, १०.
 वरदाना(न-अ)श्री^g - -श्रीः
 वैताश्री ३७, ११.
 वर-दुग्ध^h - -माणाम् अण्ड ७०^१,
 ११, २२.
 वर-प्रद, दा - ०० वृ विष १, ५४;
 ९८, ९२; -दाम् अश्री ३, ५.
 वर-प्रदात - -श्रीः अण्ड १९, ३, ७.
 वरप्रदात-काल- -श्री आश्रित
 १, ७, ४: ७.
 वर-मन्त्र-संपद्व- -यदा अण्ड
 ६९, ५, ४.
 वर-वरण- -यम् विसू ४, ९:
 १९.
 वरवरण-व्यापमान- -ने दाश्री
 ९, ४, २६; काश्री ३, ८, १७.
 वर-वर्षⁱ - > वरवर्षि(न)नी-
 -नी अण्ड १, ४४, ७.
 वर-वृ^j - -श्रियः अण्ड ३६, २५,
 २; आश्री ७, १.
 वरा(र-आ)श्री(ह)दा^k - ००दे
 विष १, ३०.
 वरा(र-आ)श्रीन^l - -ने विष १,
 ६४.

ववरिष्ठ, छा- ०० वृ सु १९, ३;
 अश्री ४, ५; -छः आपश्री १०, ३,
 २१, शाश्री १०, १३, २१^१; छ १९,
 १; अण्ड ६८, ५, २६; -छम् वाप
 ३०, ७; वा ५, १^१; श्रम १५,
 ६; -छा वृदे ५, १४^१; -छे
 वृदे ७, ८७.
 वरीय^m - -यम् सु ११, ६: १९,
 ४.
 वरⁿ - -रः आश्रित १, ६, १: ११;
 आपश्री ४, ९; ६, १०; कौसू; -रम्
 कौसू १, ८, १; शीष १, १२, १;
 आपश्री ३, ७; काण्ड २५, २३; २६;
 विष २४, ४०; -रस्य आश्रित १,
 ७, १: १२; वैव ३, ४: १३;
 -राः आपण्ड २, १६; माण्ड १, १२^१
 १६; -रात् आपण्ड ४, १; -रात्
 आश्रित २, ६, ६: ७; वीष १, २,
 ६६; ५, १९; -रे विष ९२, १६;
 वर-क^o - -कम् कौसू १, २, १;
 शीष १, ६, १; वाण्ड १०, ७.
 वर-गोत्र-नामद- -म वैव ३,
 २: ६.
 वर-दान- -नम् वृदे ७, ११२.
 वर-श्रीप- -पम् विष ५, १६१.
 वर(र-श्री)श्री- -श्रीश्री वीष
 २, ३, ५७.
 वर-श्रीपद्व- -पम् आपण्ड ३, १९.
 वरा(र-आ)दि- -रीम् अण्ड १,
 १०, १२^१.
 √वरेय, वरेयम् वैताश्री ३८,
 ६^१.
 वरेयम्^p आपमं १, १, २;
 वाण्ड २५, १; वीष १, १५; वाण्ड

a) विप., नाप. । वैप १ द. । b) पाणे. वैप १, ६१३ b^१ द. । c) कर्माः । d) = रम्- ।
 वस. । e) विष., व्यप. । अण्ड. < √दा [दाते] । f) = पूर्णाहुति- । वस. व्यप. = २दक्षिणा- । g) वस. ।
 h) वस. । i) = अण्ड- । वस. । j) = दक्ष-दुहित्- । k) विप. । कर्माणि छः द. ।
 l) वैप १ द. । m) = गार्- । n) र्वाश्री प्र. । o) पुष्या इति B.L. ।

१०, ७, नैए १, २ ४.
 श्वरण- -णम् काथी १, १३, २५,
 आपथी ११, १५, १०, वाठथी
 १३०, वीथी, -णा. आपथी
 १०, १, १३^०, -नी वीथी २०,
 १२: २८, २३, १: १९, आपथ
 ३, १०, १३, वीए १, २, ६४,
 -केल माथी ७, ११, ५
 परण दक्षिणा- णाम् अण २,
 ३, १.
 वरण-वल् काथी ९ १३, २३
 वरणीय- -य वा १२, १३
 वरवितन्व- -व्य. वा १, ७
 वरविरज वैए १, ९ १०, ३, २:
 २, ६, २ १३, ७, ७ ४, ८ २
 वरिण्, ता- -ण आण्यो ३, ६, -थे
 वीए १, २, २०.
 वरिण्पत्- -ण्वन् अप ३, १, ११
 वरेणीय^०- -यम् अप ३६, १, ८
 वरेण्य^०- पाठ ३, ९८, -०ण्य
 छप २६, ७^०, विध १, ५५,
 -०ण्य. काथी २, १०, ४, ७, ७,
 ४, ५, १८, २, शाथी ८, ३, ४,
 आपथी, -ण्वम् वृआथी ७, ६,
 ६, ८, १, १८, शाथी, तु १, २,
 आणिय १, ५, १ २^०, -०ण्यव्य
 आपथी ५, १७, ५^०, १७, १५,
 ६^०, वीथी १०, ५२ २२, माथी
 ५, १०, १०, माथी ६, ९, ५,
 १२, वाथी, -०ण्य वीथी १४,

२१ ५^०, -०ण्ये विप १९, २
 वर्धय- -व्या आपथी १४, २६, ३,
 वैथी २१, १२ ४, द्विथी १५,
 ६, ३९
 श्वर- -रम् तु ११, ६, १९, ४
 वृवार्य^०- -यम् शाथी १०, १५, ६,
 १८, २२, ४, आपथी १६, ३५,
 ५, द्विथी ११, ८, २३^०, वृदे छ,
 ७४, निप छ, २^०, वा ५, १^०, ६,
 -वर्णाम् अप छ८, ९३^०,
 -वृवाणि काथी ६, १४, १८,
 आपथी ६, १७, १०, वीथी ९,
 ९. १०, माथी, वा ९, ४२
 वृणान्, वा- -न माथी १०, १, २,
 माथी २ ५ ४, २०^०, वीए ५५
 १६^०, -र्णा आणिय ३, ५ ६
 १३, वीथि १, ५ ३, -ना आप
 छ, ६, ८^०
 वृण- -व शाथी ५, १, १०,
 काथी २, १, १८, आपथी,
 -व ऽ-त वीथी २, ४ २१,
 वैथी १४, १७ १२, द्विथी ७,
 १, ११, -तम् आपथी १४,
 १५, १^०, ३१, ८, द्विथी १०,
 ७, १७, अप छ८, ९०^०, निप
 २, १०^०, -वा आपथी १४,
 २४, १७, वीथी १४, २९ २५,
 २४, १२ ४, माथी, -ले कथ
 ३०३^०
 वृत् क्षय- -ये वा १२, २९

वृत्- वा ३, १, १०९
 वृत्वा काथी ८, १३, २६, वाथी
 ९, ४, ३२x४, आपथी
 √वृ(आच्छादने)^०, वरन्त कथा ८, ४५
 वृणोति वा २, ९, ५, ८, १०, २,
 कृणोते वा २, १७
 'वर' > वृवरिमत्- -मत कथा
 ३ ४, १
 वृवरिमत्- वा ५, १, १२९, ६,
 ४, १५७, -रिणा वीथी ३, २
 १^०, -रिणाम् आथी ७, १०,
 १, शाथी ५, १४, ८, वीथी ६,
 १५ २२
 वरविह- वा ६, ४, १५७
 वरीयत्- वा ६, ४, १५७, -य.
 वीथी छ, ६ ६१, वाधूथी ३,
 ५३ २^०, अप १, ११, ५^०, वा
 ८ १^०, -यसी काठथी ९६,
 -वात्तम् वैथी २१, ६ ३,
 -वासो वीथी १७, २८ १३
 वरीयसी- -रम् वैथी
 २०, ९ ४
 वरीयो-वादि- -वी भास्व
 ३, ६
 वृवर- -रम् वा ५ ४^०, -रे आथी
 छ, ४, २^०, शाथी ५, ६, २^०,
 वीथी ६, ९ १२, माथी २ १,
 ३, १५
 वर, रे ज- वा ६, ३, १६
 वर-सत्- -सत् वा १४, ३१^०

a) मावे क्त्वे च प्र । b) = [वरण-शाधन-] म न । c) तथा वीए १, ६, ३ २वदित- > -वे इति पाठे । d) = २वरेण्य- । e) वैप १ इ । f) वरेण्य इति शोध (तु सथा श्र १०, ८५ २३ प्रम्) । g) पाठो वैप १ वरेण्यस्य मा १७, ७४ टि इ । h) = तथा वै ३, ५ ४, १ । वाठ ५ ६ तु वरेण्यम् इति, मै १, ४, ३ वरेण इति च पाठे । i) नाप (वर इन्द्रु) । कर्मणि घन् प्र । j) वाऽऽयम् इति पाठ ? यदि शोध (तु आपथी प्रम्) । k) = अस्व । l) पाठ वैप १ १३८४ । इ । m) पाठे वैप १ वृणात्ता श्र १०, १८, ६ टि इ । n) = धन । o) *ले इति पाठ ? यदि शोध । p) विप (२स्व- [आदित्य] । क्व (तु र्क) । लप < √क्षि (निघांते) । q) मा २, १७, २६, ५, २१, ६, २, ३५ ११, ३१ पराम्प इ । r) = वृवरिमत्- (तु वैप १) । s) = वृवरिमत्- (तु वैप १) । t) पाठे वैप १ वरिणा वै १, ५, ३, १ टि इ । u) = वदक- ।

वरा(र-आ)हार^० -रः वा ५, ४.
 धरण- ग्राह या ६, २८.

वरत्र,त्रा^० - पाठ ३, १०७; पाग ४,
 २, ५३; -त्रया शोभौ १२, १६,
 ११; आपश्री २०, ३, १६; हिथौ
 १४, १, ३७; आश २, १, ४;
 -त्रयाः आपश्री १६, १८, ११;
 वीथौ १०, २५; १^०; ६; वाश्री
 २, १, ५, १०; वैथौ १८, १५; ८^०;
 आशित् ३, ८, २; ७, -त्रान् काश
 ७१, १३^०; -त्रैः वैथौ १८
 १५; ९.

वारत्रक- पा ४, २, ५३.

वरत्रा-काण्ड- ष्टेन काश्री ७,
 ८, २५; आपश्री १०, २७, ६;
 माश्री १०, १८, १३; हिथौ ७,
 २, ८६.

वरस्^० - शंसि शोभौ १४, २४, ५१.

वृत्तिवस्^० - नः आश्री ८, १४, ४;
 आपश्री ११, १७, ३; १७, ३, ४;
 वीथौ; निप २, १०^०.

वृत्तिवस्-वृत्^० - वृत्त वीथौ
 १०, ४५; ३३; हिथौ १२, २, ७,
 √ वरिवरय पा ३, १, १९.

वरिवरय- रयन् शोभौ
 १४, २७, १३^०.

वरिवो-विद्^० - विद्म श्रा ४,
 ३^०.

वरी^० - श्वेः निप १, १३^०.

वस्तु^० - पा ७, २, ३४; -ता शोभौ
 १७, ८, ११.

वस्तु, वी^० - पा ७, २, ३४.

-वृत्तयः आपश्री १४, १२, ४;

वीथौ १०, ७; १; वैथौ १८, १;

८५; हिथौ १०, ६, ९; -वृत्तिम्^०

आपश्री १६, २७, ११; वीथौ १०,

३४; १२; हिथौ ११, ७, ५९;

-वृत्तौः काश्री १६, ४, १४^०;

श्रा ३, ७८; -वृत्तौ^० माश्री

६, १, ७, २८; वैथौ १८, १९;

१७.

वृत्तय^० - पाठ २, ६; -वृत्तम्

आपश्री १६, १८, ८; वीथौ ६,

३०; १६; १०, ४; ७; वैथौ;

आपश्री २, २, १^०; अप ४८, ८९;

१२७^०; निप ३, ४.

वृत्तयिन्^० - धिनः आपश्री

२०, ५, १३; आपश्री २, १५, १३;

वीथौ ३, ३, ६; श्राय; -वित्तम्

हिथौ ८, ६, ३३^०; -धिनो^० आशित्

१, २, २; १९; माश्री ३, १०^०;

हिथ २, १९, ६.

वृत्तयन्^० - वृत्त. वीथौ ३, ८;

३०; वीथ ६८, ३१; श्रा ५,

वृत्तय-देश- श्वे श्रा १,

३, ३.

वृत्ति^० - वृत्ति वीथ २५, १६.

वृत्ति^० - वृत्ति श्रा ३, २, १^०;

-श्रैंग आश ३, ११, १^०; -श्रै

आश ३, ११, १.

वृत्ति^० - श्रैंगिः आश ३, ११, १^०;

-श्रैया आश ३, ११, १^०.

वृत्ति^० - पाग ५, २, ३६; ११६; -वृत्ति

वाश्री १, ३, १^०; २, १०, २१, ५

१२, १५; शोभौ; आपश्री १४,

२६, १^०; वाश्री ३, ४, ३, २८^०;

अप ४८, ८९^०; -वृत्तिना वीथ

४६, ५५^०; अप १, ३६, ७^०, ३७,

१, ११^०; ५८^०, २, ४६; -वृत्ति

अप ३३, ६, १०; -वृत्तिना

आपश्री ४, ६, ४; माश्री ४, ९,

२; हिथौ ६, २, १५.

वृत्ति-वत्- पा ५, २, ११६;

१३६^०.

वृत्ति-संनहन-> वी(व)

वा- -वाभिः वीथौ १५, २४

६.

वृत्ति पा ३, १, २५.

वृत्ति- पा ५, २, ११६, पा

५, १, १२४^०; १२८^०.

वृत्ति- पा ५, १, १२४,

१२८.

वृत्ति- पा ५, २, ३६; पा ५,

१, १२८^०.

a) वत्त. । b) वैप १ द. । c) अर्थः १ । d) = सपा. ऋ १०, १०१, ५ । वाठ ३८, १४ वृ वरवाय
 इति, वै १२, ६, ३ वरवाय इति च पाठे. । e) = वृत्तय- (वृ. वैप १) । f) = धन- । g) वैपु. वे. < √
 [वरयो] इति । h) = इष्टवा-विशेष- । i) वैप १ निदिष्टयोः समावेशः द. । j) = सपा. वै ४, १, ६, ३ ।
 मे २, ७, ६ वृ वृत्तौ इति, मा ११, ६१ प्रम. वृत्तौः इति च पाठे. । k) सपा. 'वृत्ति' (वै ४, २, १-३ च)
 <> 'वृत्ति' (मा १३, ४४ च) इति पाठे. । l) शर्म, वृत्तय इत्यस्य स्थाने सपा. हिथ १, ४, ४ वृत्तय इति
 पाठे. । m) = वृत्तय- । n) पाठे, वैप १ वृत्तयिनाम् मे १, ३, १ टि. द. । o) वृत्तय- । p) = वृत्तय- (वृ. वैप १)
 पा. आशोपने इति. । कर्त्तारि तिवृ. (पाठ ४, १८३) । q) = आच्छादक- । r) पाठे, वैप १, ११२८ ज द. ।
 s) सपा. आपश्री २०, १६, ४ वृत्तय इति पाठे. । t) = वृत्तय- । u) वा. वैप १, २२६३ ट द. । v) = सपा.
 क ६, ७५, १८ । वै ४, ६, ४, ४ वृ वृत्तयः इति पाठे. । w) वृ. पापय. । x) नाप. (वृत्तय-) । वृत्तय
 प्रयोक्तव्यार्थे षः प्र. । y) वृत्तय- इति पाठः ।

वार्मित्य- वा ५, १, १२८.
 २वार्मित्य- वा ५, २, ११६,
 १३६^a, -मिणम् वृदे ५, १२९,
 -मिण वा २, १७, १४
 २वृत्, ता- न कौस् १०७, २^१,
 अय ४, २, १५, -वम् वाधुशी
 ४, ८६^१ १४, आण ३, ११, १^१ १^१,
 वृदे ४, २३, विध २६, ४८,
 -तया आण ३, ११, १^१ १^१, -१^१ ता
 आण ३, ११, १^१, कौस् १३७,
 २३^१, -वा. आण ३, ११, १^१ १^१,
 आ ५२, २, ३, -वाभि आण
 ३ ११, १^१, -वाभ्य शोधौ ९,
 २८, ६, -वाभ्य वृदे ७, १५१,
 -वेन आण ३, ११, १^१ १^१, -सै
 आण ३, ११, १
 वृत्ति^b - वि शय ३०८
 २वृत्त्या वृदे २, ४६, या २, ६
 √वृ(प्रतिपाते)^c, वरम्बे वा १०, २९
 वारयति आसिष्ट ३, ४, १७,
 वीवि ३, ४, १६, या ९, २, वार
 यन्ति या १०, २९ १^१ वारयात्
 आसिष्ट ३, ८, ३: ३०, वीवि १,
 १६ १६, द्विदि १६ १२,
 १^१ वारयातै अय ३२, १, ५, २४,
 अय ६, ८५ वारयताम् कौस्
 ८५, १२१^१, १^१ वारयन्वाय^d आधौ
 ३, ३, १, शोधौ ५, १७, ४,
 अवारयेषाम् या ६, ३६^१, वार
 येत् वीधौ २ ६, वीध २, १८
 १७, ५, ६ ४, ७, १३ २५
 वीवि, वारये आण ३, ११, १^१ १^१
 ५वरण^e - पाठ २, ७४, -१^१ ण

आसिष्ट ३, ८, ३: ३०; वीवि १,
 १६ १६, द्विदि १६: ११,
 कौस् १९, २२, २६, ३३, अय
 ३२, १, ५, १८, २४, अय ६ ८५,
 १०, ३^१, अय ४-२४, -अस्य
 माधौ १, २, १, ७^१.
 ३वारण^f - न माधौ १, १७,
 ३, वेधौ ९, ४: ११, द्विधौ ५, ४,
 १५, आसिष्ट ३ ७, १ १, वीवि,
 -अस्य द्विधौ १, ४, ३९, ८, १,
 ३५, -वान् काधौ २१, ४, २५,
 आसिष्ट ३, ७, १ १, ५, वीवि,
 -णानि काधौ १, ३, ३७, आधौ
 १, १५, १४, माधौ १, १७, २,
 वेधौ, -णे द्विधौ ५, ४, ३६,
 -णेन शोधौ ४, १६, ३, काधौ
 २१, ४, २५, आसिष्ट ३, ७, १
 १२, १६, वीवि
 वारणी^g - ण्या द्विदि
 ११ ४, १२ ३, -ण्यम्
 आसिष्ट ३, ७, १ १२, वीवि १,
 १७ ११
 वारण-वाण- -वे वेधौ ९
 ६ २
 वारण शाखा- -खाम्
 आसिष्ट ३, ८, १ १०, ३ २९,
 वीवि १, १४ १०×४, द्विदि
 वरण-वाणि^h - णि. शोधौ १, ४,
 ३, ३१
 वरण-मय- -यानि वाधौ १, २,
 ४, ३
 वरण शाखा- -स्यदा वीवि १,
 २, ८, ११

१^१ वारणⁱ - न शोधौ ११, १२,
 ४, वा ५, २१, -णेय वापधौ
 ६, १७, १०^१, माधौ ६, ४, ४,
 द्विधौ ६, ९, १६.
 ५वारण- -वम् काधौ २०, २, १२,
 वृत् ३, ११ ३१, आसिष्ट २, ५,
 १ ५०, ५१.
 वारणा(ण अर्थ)- -यानाम् वा
 १, ४, २७, -पेणु पावा १, ४,
 २७

√वृक् पाथा भ्वा आस्य आदाने
 श्रुक्(वमा)^j - पाठ ३, ४१, पाय २,
 १, ५६^१, २, ३८^१, -क अय
 १^१ ४८, ८१^१, १९^१, ६८, २, ५१,
 १^१ विध २, २०^१, ३, २४^१, ४, २,
 वा ५, २०^१, २१^१, १, ६, २६^१,
 -१^१ कम् वापधौ २२, २८, १४,
 वीधौ १८, १७ १३, द्विधौ, -कयो
 माधौ ५, २, ४, २८^१, -कस्य वा
 ५, २१^१, -का वीधौ ६, १६
 ७^१, अय ५७, २, ६, -काय
 वा १, १०^१, -१^१ कम् वापधौ
 २१, १२ ३, द्विधौ १६ ४, २५,
 -के वीधौ २, ५ १^१, -केण
 वा ६, २६, -के द्विधौ १३,
 ८, २३^१, अय ६१, १, ७,
 -कौ काधौ ४, २०, १^१, आपधौ
 १९, २, ११, काधौ ३, २, ७, २३,
 वेधौ ११ ४ ३
 वृकी - की विध २०, ४२, वा
 ५ २१, -मये वा ५, २१^१
 वृक ति- वा ५, ४, ४१
 वृक रूप- -वम् वीधौ १८, ४५ ५,

a) वृ पाणम् । b) = क्षेत्र-वेष्टन (वाट इति नर्मा) । c) वा २, १३, ८, ९ पराण्य ५ ।

d) = सत्ता वाट १६, २१ एणम् २, ६ । e) वेप १ ६ ।

f) = वृण विहाय- । g) विकारार्थे प्र । h) वस । i) = वारण- (वृ वेप १) । j) पामि वेप १

वारणेषु न् १०, १८५, २ टि ३ । k) वृषण- इति पाठ । l) = स्त्रेण । m) = क्विन्- ।

n) = वज्र । o) पाठ १ सप्र आपधौ वम् कौ इति पामि ।

शुद्ध लोमन्- -मभि. आपथी १९,
२, १०, वीथी १७, २४: १५:
हिथी, -मामि वीथी ११, ४. २,
-शा माथी ५, २, ११, १६.
शुद्ध-न्याय सिंह-लोमन्- -मभि
काथी १२, २, २५
शुद्ध-शकटा (ट-आ) रोहण- -गम्
गप ७२, ३, ७
शुद्धा (क-आ) शु (दि-उ) पचात- -ते
विप ५, १३७
√शुद्धकव>शुद्धाणु- -यु कथा
९, १६१
शुद्धक(क-उ)दर- -राय आश्रित २,
६, ८ ३५१
शुद्धक-→शुद्धक- पा ५, १, ११५
शुद्धक-(>शुद्धक- पा) पाग ४, १,
१६.
शुद्धकग्राह-(>शुद्धकग्राहिक- पा)
पाग ४, १, १४६
शुद्धकजम्भ-→शुद्धकजम्भा- -म्भम्
लाथी १०, ४, ९, सुम् २, १०:
१२, ११ ५, निम् १, १३:
१३, ९, १: ५९, १०, १-२८
शुद्धकम्भु-(>शुद्धकम्भुक- पा) पाग
४, १, १४६
शुद्धकरूप- १शक द.
शुद्धकल- -सम् वीथी १७, ३९, २,
आश्रित १, ३, १: २, -कैः वीथी
१७, ४० २१, आश्रित १, ३,
३ ६
शुद्धक(ल>)ला- पाग ४, १, १६
वाकैलि- पा ४, १, १६, पाग २, ४,

६१; -लि: सुम् ४, १८५.
वाकैलायन- पा २, ४, ६१.
शुद्धलोमन्- १शक द.
शुद्धवञ्जिन्-(>वाकैवञ्जिक-पा.)
पाग ४, १, १४६.
शुद्धस्त- -स: वीथी २, १८: १३१.
शुद्धादव- -श्वा वीथी ३. १०.
शुद्ध- -क हिथी १२, ६, ६१,
-कयो- माथी ७, १८, १२,
१९, १०, माथी १, ८, ५, १८,
वाथी १, ६, ७, १, -कैः शीथी
४, १४, १४, काथी २५, ७, ३७,
काठथी ६३, लाथी ८, ८, २५,
आश्र, विप ९६, ९२.
शुद्धक- -कौ विप ९६, ९१.
शुद्धक-सक्यन्- -म्भो कथ २, १०,
५
शुद्धका(क-अ)पचा- -रे आश्र ४, ३,
२४.
शुद्धपण- √शुद्ध
शुद्धक- √शुद्ध.
शुद्धय- -कयो वीथी ४, १ २,
-कौ आपथी ७, २२, ६, निम्
२, ६- २४, शीपि २, ७, २२.
शुद्धयन्नेदस्- -द: वीथी ४, १: ५,
१, २५, ३२: ५, ७, १७, १९.
√शुद्ध पाषा. म्भा. श्रात्म वरयो.
शुद्धश- पात ३, ६६, पाग ४, २,
१०^१, -क्ष: आपथी १०, १०,
४, १२, १, ५, १६, १, ७, माथी
१, १६, ७, १०, ६, १९, माथी,
या १२, २९७, या ६, १, १५६,

-सम् आपथी ७, १७, ७, वीथी
९, १६, ४१, १८, २० १, माथी,
आपमं १, ५, १२^१, कौ
३५, २१^१; -स्यो आपथी
८, १८, ८; -स्यम् आपथी ११०,
८, १०, ११, १२, ८, १०, शीथी,
-क्षा आपथी १, ५, ८, ७, १,
१५, वीथी २५, २४: १२, माथी,
-क्षायाम् आपथी १, १५, ११,
वीथी २८, १३: १४, हिथी,
-क्षार आपथी १०, २०, ७^१,
आपमं २, २२, ११^१, कौष्ट ३,
१, ९, काण, -क्षार वीथी
१५, १: ३; हिथी ४, १, १३,
माथ २, ३१ ४, कौष्ट १३५, ११^१,
आप, -क्षे शीथी १२, १५, ११,
आपथी ८, १८, ८, माथी ८, २२,
५, माथी, -क्षेक्ष-क्षे वृदे २, १११,
७, २७, या २, ६, शैवि १०६^१,
-क्षेण माथी २, ६: ७, -क्षेण
आपथी ८, १८, ८, आपम १, ७,
८^१, वीथ ४, २, १५^१, माथ,
-क्षे कैथी ३, ५: २, -क्षी^१
आश्रित ३, ८, ३: ११, शीपि १,
१५: ८१, ८३, वीथ ७, १ ६,
हिपि १५ १९
वाकै, शर्मा- -कैः आपथ १६
१६, आपथ १, २, ३८, हिप
१, १, ६९, -संम् वीथ २, ५
१७, २४, गोथ २, १०, १७,
३, १, १२, द्राथ, शीप १, २६,
-क्षाम् वैथ ३, १४, १^१.

a) व्यप । वत । b) = सायुपजीविसंघविशेष-। c) व्यप. । d) = साम विशेष ।
तेनदशोप- अण् प्र । e) वैप २, ३३३ द । f) = १शुद्ध- । g) वैप १ द. । h) पामे वैप १,
२-२१ h द । i) सु^१ इति जीवित । j) सार्धे द. । k) नाप (वद-). l) वृ १२९९ ४ द. । m) पामे-
वैप १, २४९१ h द । n) पामे. वैप १ शुद्धम् वी ६, ८, १ टि द । o) पाठ^१ वृक्षाम् इति सोप (द भाष्यम्,
०, दिल्ली १२०, १, २७ भाष्यम्) । p) शार्वपिडशार्वपि इति वैकरीय सप्रदायः । q) = सपा तैका ६, ७, २^१ ।
शी १८, २, २५ तु शुद्ध इति पामे. । r) विप. (गुरा-).

-क्षे वप २, ५, १९.

पार्श्व- -क्षीर्षु वाथी ४,
१४, १२.

वृक्ष-वेदन- -ने क्षम २७० : ७.

वृक्ष-द्रोणी- -व्याम् वृदे ५, ८३.

वृक्ष-ना(मन् >)मा- -मा आपठ
३, १३.

वृक्ष-नियोग- -न आपथी १२, २,
११.

वृक्ष-निर्वास- -सात् क्षम ४२७,
विष ५१, ३६

वृक्ष-नी-यान क्षम- -नेषु वैष २,
१२, ३.

वृक्ष-प्रद- -दुः विष ९१, ५.

वृक्ष-प्रमू- -नीः विष ९१, ५

वृक्ष-प्रवचन- -गानि क्षम ६४, ३,
७.

वृक्ष-भद्र- -हे वाप २७६ : १.

वृक्ष-भूमि- -मी कौशु ३०, ८.

वृक्ष-म(य >)षी- -यीः अशा ५, ८.

वृक्ष-मूल- -पागम ३८२, -क्षम्
अप १, ७, ६, आपथ १, २९, ११

विष ६३, १०, द्विष १, ७, ५७,

-सात् कौशु ८३, १९, -ले

कौषि १, ५, ३४, ७, ४, कौशु

८२, ३२, पाप १०, १३, वैष

३, ५, १३, ६, ६, -लेषु विष

६९, ८

पार्श्वमूलिक- -पागम ३८२.

वृक्षमूल निकेतन- -न वाप ९,
११, विष २६, ११.

वृक्षमूलिक- -क कौष २, १०,
६७

वृक्ष-मृग-वृण-वाम्य-वाम्यन-वसु-

वाकुनि^१ पा २, ४, १२.

वृष-लिपुत्र- -जयोः कौशु ३५,
२१.

वृक्ष-वेदमन्- -दमानि क्षम ७०^१,
३, ३.

वृक्ष-वह- -द्वी सु ७, १.

वृक्ष-वारण- -गाम्याम् गोरु ३,
१, १०.

वृक्ष-समारह- -अ दिष १, ३, ६९

वृक्ष-स्वाम-विष्ण- -क्षम् काथी
२२, ३, ४

वृक्षा(क्ष-अ)म- -माद् आपथी ५,
१४, ३, १६, ९, ८, द्विषी ३,

४, २५, ११, ३, ११, द्विष १,
१६, ७^१.

वृक्षा(क्ष-अ)द्रुगुल-विनाशि(न >)
नी- -नी क्षम ७०^१, १०, १.

वृक्षा(क्ष-आ)द(दि-म)थ- -थेम्
पावा १, १, ६८.

वृक्षा(क्ष-आम >)मा- -मा आप
५८^१, ३, ६.

वृक्षा(क्ष-आ)ण्यौ(एव ओ)पथि-
-धीनाम् काथी २, १, १४.

वृक्षा(क्ष-आ)रुद- -वस्वपाप १३,
१८.

वृक्षा(क्ष-आ)रोपक-वृत्ति- -क्ति.
क्षम २०१.

वृक्षा(क्ष-आ)रोपविष्- -नुः विष
९१, ४

वृक्षा(क्ष-आ)रोहण- -के कौष ३,
९, २९, माठ ४, ७, ३४

वृक्षा(क्ष-आ)सजग- -नम् काथी

२५, १०, १६.

वृक्षा(क्ष-आ)सन- -नयो. पा ८,
३, ९३

वृक्षीय- -पा ४, २, ९०.

वृक्षे(क्ष-ए)क मूल- -ले वैष १,
९, ५

२वृक्ष^२ (>धाव्यं- [>वर्षाव-
[श >]वी-] पा.) पाप ४, १,
१०५^१, १८.

वेवृक्ष^३ (>वृक्षी-)

४वृक्ष- १वृक्ष-दि ८.

वृक्षा- (>वृक्षा-मत्- पा) पाप
८, २, ९.

√वृज्^४, वचंसि कौथी १७, ४० :
८^१, १^२ वचिष, >या कौथी १७,
४० ९, आसिष् १, ३, २ : १७,
द्विष १, ९, १६^१

वृज्ग- -जेषु क्षम २, १०, ५०,
वृदे ७, ६१

√वृज्^५ पापा अदा आत्म, कथा,^१
पर, सुरा, उम वचने, वपुष्पु.

अप १, ३२, ७^१.

वृजे कौषपथी ४, १३, ६, २८,
५, ५, कौथी १३, १६ १, ३, २४,

वापुष्पु, आपथ १, ३, २६,
द्विष १, १, १०१, वृष्णकि

विष २, १९^१, वृष्णते कौथी
१९, ४ ३८^१, वृजे गो २, ३२^१,

वृज्काम् आपथी १, ९, ९,
कौथी २, १००७, आपम २,

१९, १, ३, ५, कौष, वृज्काम्
आपथी २१, ११, ५, ६, द्विषी २६,

४, ३०^१, वृज्काम् द्विषी २२, ७,

a) वप. । b) उप = १ निर्वास. । c) तत्रनिवसतीत्यर्थे वृज् प्र उरु. (पा ४, ४, ७३) । d) द्वय
उप = वृज्. । e) द्वय > क्त । आरव्य- इति पूर्वपरान्वयीति माष्यम् । f) क्त. > वप । 'वे, ए' >
आर्षस्यिना यनि इति ० (द्व टि) । g) व्यप । h) वृ १६४२ । इ । ३) [वृजे] BFG. । j) तथा आसिष्
१, ३, २ १६ वृक्षपथि इति पाठे । शिष्ट वैष १, २५१६० इ । k) पाठे वैष १ क्षुमम् शो ८, २, १७ टि. इ ।
l) मार्जे इति Boht (ZDMG ५२, ८२) शोधः । m) पा २, ४, ८० परावृष्टः इ । n) पा द्विषायां वृत्ति ।

५; वृज्जीरद् औश्री १२, ४ : ३७.

वृज्पते वा ८, १११.

वर्जयते आपव १, १८, ३३०;

वर्जयति वैश ३, १ : १२; ६, ४ :

५; वैष ३, १, १०; ५, ८; हिष

२, ५ ९९०; या ३, ११; वर्जयन्ति

शंष ४६२; वर्जय गोश ३, १,

१४; वर्जयेत् झाश्री २, १४,

२३; १६, २४; झाश्री;

वर्जयेरम् आशु ४, ४, १७; वर्ज-

येयुः आश्री १२, ८, ३; झाश्री.

वर्जयेते वैश ६, १० : ५.

विज्जिषेत्^१ भाश्री ६, १, १, १२.

वरीवर्जय(त् >)न्ती^२ - न्ती अपा

३, ४, ५१.

वरीवृजय् - पा ७, ४, ६५

वरीवृजयम् अपा ३, ४, १.

वर्ग^३ - पाग ४, ३, ५४; -र्गः अप

४८, १०३१^४; वृदे १, ५; २, ८५;

८६; ८७; निष २, ९१^५; अपा १,

४१४४; -र्गम् अश्रा १, ६४;

-र्गस्य अप ४७, १, १४; वृदे २,

८६; अश्र २, २, ३; -र्गाः काश्री

१६, ७, २५; निवृ ५, ११ : २;

अप ४७, १, ८; काश्रु ३, ७^६;

अश्र ३, ४२; अश्रा १६, १४४४;

उत्; -र्गागम् निवृ ५, ११ : १;

अप ४७, १, १४; अश्र ३, ३८;

चवृ १ : १३; उत् १, ७; ७, १४;

वैशि; -र्गाद् वीश्री १८, ४९ :

२; -र्गाद् वाश्री २, ३, १, २२;

लाश्री ८, ५, १६; आपशु ३, ११;

दिशु १, ५०; -र्गे गौष ११,

२३; पा ५, १, ६०; आश्री २,

१०; -र्गेऽर्गे अश्रा १, १२;

-र्गेषु अश्रा १४, २१; -र्गेः वृदे

७, ११६; -र्गे अश्र ३, ४०;

चवृ १ : १२.

वर्गवर्चा अश्र १ : ४७.

वर्ग-द्वय- -यम् कौश १, १, १.

वर्ग-द्वितीय- -येषु माशि ११,

१०; नाशि २, २, ६.

वर्ग-प्रथमा(न-अ)न्त^७ - न्तात्

वैशि ३१५.

वर्ग-यम्^८ - मानाम् आशि ४,

३; ५.

वर्ग-यत् तैप्रा २, ५१.

वर्ग-विपर्यय- -ये शौच २, ३८.

वर्ग-सवर्ण- -र्गेयोः माशि १२, ४.

वर्गा(र्ग-आ)व्या- -व्या तैप्रा

१, २७.

वर्गा(र्ग-आ)दि- -दिः अप ४७,

१, १४; वैशि २६०; -दिभिः

अप ४६, २, ४; -देः वैशि २६८.

वर्गा(र्ग-आ)व- -यम् आश्री ११, ७.

वर्गा(र्ग-अ)न्त- -न्ताः माशि

११, ४, ५; -न्तैः माशि २, ७३.

वर्गा(र्ग-अ)न्त^९ - न्तात् आश्री

११, ७; -न्तात् पा ४, ३, ६३;

पावा ४, २, १०४.

वर्गा(र्ग-अ)न्त- -नः अप ४७,

१, १४; -रेषु काश्री २४, ३, ५.

वर्गा(र्ग-अ)न्त- -न्ताः अप

४७, १, १६; -न्यत् माशि २,

२, ९४^{१०}; -न्तानाम् अप ४७,

१, ९९.

वर्गा(र्ग-उ)न्त- -न्ताः अप ४७,

२, ३; -न्तैः अप ४६, २, ४.

वर्गा(र्ग-उ)न्त- -नः तैप्रा १,

२७.

वर्ग- वा ४, ३, ५४; -र्गः

आशि ६, १४; -वर्गेण माशि ६,

१४.

वर्गा(र्ग-आ)दि- -द्वयः अप

६, २, १३१.

वर्गा(र्ग-अ)न्त- -न्तैः

वैशि २१५.

वर्जन- -यम् वौष २, १०, ४१;

-नाद् मीश ९, ४, ३२; -वे पा

१, ४, ८८; ८, १, ५; पावा २, ४,

५४; ८, १, ५; मीश ९, ४, ३६.

वर्जनीय,या- -यम् वैश्री ११,

११ : १३; वैष २, १५, ५; -न्ता

अप २२, ३, २; -याः अप

२७९ : ६; २८० : १; आश्री

६, १३; -यानि वैश्री ११, ११ :

९; शंष १२७; विष ५१, ५;

वा १०, १४; ४१.

वर्जम् आश्र ६, ३.

वर्जयत् -यत् निवृ १, १० : २८;

वौश २, ५, ७२; -यन्तः वैष १,

९, ३.

वर्जयान- -न्तौ अश्र १, ४, ९.

वर्जयित्वा आश्री ६, ४, ३; १२, १, ३,

वैश्री; हिष २, ३, ३२^१.

वर्जित- -तः माशि ८, १०.

वर्ज्य कौश २, ६, ९१^१.

वर्ज्य,वर्णा- -वर्ज्यम् शंष २३:

-वर्णाः वौश २, ६, ९१^१.

वर्णा(वर्ण-अ)वर्ज्य-विधि- -धिः

काश्रु ४३ : १७.

वर्जयमान- > न्ता(न-अ)होराश्र-

वयव- -येषु पा ६, २, ३३.

a) परस्परं पामे. । b) पा. अर्थः ३ । c) वैष ११. । d) कर्णणि घञ् प्र. । e) = १२६. । f) = तदुवाह-मुपन- इति भाष्यम् । g) पत्. > पत्. । h) उप. = २२५. । i) परस्परं पामे. । j) वग. । k) 'वर्णा' इति लातं. । l) पामे. इ १५२२ ि द. ।

परतिवस्- > ववर्तुषी- -वीणाम्
श्रमा १४, ४०र्षी.

वृषत-> वृष्-वर्द्धिष्- -द्विपः
अप ४८, १९०; कुं १, १५९;
निष ३, १८०; -द्विपे आपथी
१६, ३५, ५; वाथी २, १, ८,
१६; द्विथी ११, ८, २३.

वृत्- वृक् निष २, १०र्षी.
वृज्जन्- पाठ २, ८१; -नम् निष
२, १०र्षी; -नस्य वीथी १८, ५;
११र्षी; -नानां आपथी २, २०, ६;
माथी २, ११, १; द्विथी २, ५,
४५; -ने वा ६, २३र्षी; भाषि
२.

वृत्तिन्- पाठ २, ४०; -नम् आथी
७, ११, २२; आपथी २१, १२, ३;
द्विथी १६, ४, ३५; सु १४, ५९;
अप ४८, ६३; वीथ ४, ५, २३९;
-नात् सु १४, ४; वाप ६, ५;
-नानि वा १०, ४१र्षी.

√वृत्तिनाय > वृत्तिनायत्-
-यन्तम् श्रमा ९, १९र्षी.

वृत्ति- > वृत्ति- वा ४, २, १३१.
वृत्तिनाहंपत्- पावा ६, २, ४२.

वृद्ध- √वृद्ध् द.

√वृष्ण् पाधा. वृषा. पर प्रीणने.

वृषान्, ना- √वृ (वरुणे) द.

√वृष् (वषा.)^६ पाधा. भ्रा. श्याल.
वर्तने; दिवा. श्याल. वरुणे, चुरा.
रम. भाषायाम्, वर्तते वीथी २१,
८: २३; द्विथी, निष २, १४र्षी;
वर्तते शाथी ३, ८, ५; निष् ८,
५: २२; वर्तते शाथी १४, ४०,

१०; वीथी २४, १: १६; ११:
११; शाथी; वर्तवाम् वृदे १, १०;
अवर्तत वा २, १०र्षी; वृषवत्
आपमं २, ११, ७र्षी; वर्तव लाथी
१०, १०, १५; निष् ३, ७: १४;
वीथ १, १०, ८; विष; वर्तवत्
माथी ८, १५, ८; लाथी १०, १५,
१०; वाथ; वर्तया: सु ९, २.

वार्त्तव श्रमा ९, ४०र्षी; वृत्तव
माथ १, २२, ५र्षी.

वर्तवपि शापथी ५, १४, ६;
माथी; वा ५, १, ७२; वर्तवमि
लाठथी ९१; वीथी १५, २४:
१८; वर्तव निष् ९, १: ४७र्षी;
भाथ २, २७: ७; वर्तवत् वीथी
२३, २: १७, १५४४; लाथी;
वर्तवेषु: शाथी १२, ८, ४१.

वर्तविव्याम: अत्रा १, १, १.
अवर्ति^७ वाधुथी ४, १०: ३.

वर्त-> वर्ता (त-आ) द्वि- -द्विपु
शेष ३, १२.

वर्तन्- -नम् आपथी ९, १९, ३;
वीथी १४, १४: १८; वीथी २०,
३७: ६; द्विथी १५, ८, १६;
आपमं २, २२, ७; भाथ २, २७:
७; द्विप १, १४, ५; -नम् काथी
८, ४, २; -नात् वीथ ३, २, ७.
वर्तन-सामान्य- -न्यात् वा १३,
१२.

वर्तनि, वी^८- पाठ २, १०६; पाग
६, १, १५६र्षी; -नि: श्रमा ४,
४०र्षी, -निम् आपथी ९, १४,
१र्षी; वीथी २१, १४: २३; २२,

१३: १र्षी; वीथी-नी वाधुथी ४,
८१: १०; -नी: वीथी २१,
१४: २५; क्ता ५, ४, ८र्षी; -नीम्
वाधुथी ४, ८१: ११; -न्या
नीथी १३, ३२: ११; १२;
१४; -न्या: माथी २, ४, १,
४१; -न्याम् आपथी १२, ७,
२; ९, १; २५, ७र्षी; वीथी.

वर्त(वृ<)न्वी- -न्याम् वृदे ६,
१३७.

वर्तमान- -न: वीथी २५, २७:
२९, २८: १८; सु: -नम् वाध
६, ५; शेष ११६: २४; ४४;
४७: ४८; -नस्य शाथी १४,
१, १५; लाथी ५, ५, १३; वैप
३, २१: ९; -ना: आपथ २, २४,
३; द्विप २, ५, १६८; वा ९, ८;
-नात् वीथी २८, २: ५४;
-नानाम् आपथ १, १८, १३;
वीथ ३, १, १; द्विप १, ५, ८९;
-ने काथी ११, १, २; आपथी
१८, ४, ११; २१, ५, १५; वीथी;
वा ३, २, १२३; ३, १६०; आपथो
५, १४.

वर्तमान-कालो(ल-उ)सादान-
-नम् पावा ३, १, १३३.

वर्तमान-वत् पा, पावा ३, ३,
१३१.

वर्तमान-सामीप्य- -व्ये पा, पावा
३, ३, १३१.

वर्तमान(न-अ)वृद्धा- -शात्
काथी १, १०, १०; गीष् ११, १,
७०.

d) पामे. वैप १ ववर्तुषीणाम् द्वि. द. 1 b) वैप १ द. 1 c) = श्रवित्. 1 d) = १७त्. 1

e) = १वृज्जन्- (द्व. वैप १)। f) पामे. वैप १ वृज्जना क्ता ४०, १० द्वि. द. 1 g) वा २, १० पा १, ३, ९१;
१२; ३, १, १५; ५५ पराण्ड द. 1 h) वा. गती वृत्ति। i) वा. द्विसावां वृत्ति: 1 वृ १५७६८ अस्याऽपि समावेशः
द. 1 j) वर्तवपि लुङि ह्यम् इति भा. (तैत्ति १, २, ६, १)। k) पामे. वैप १ वर्तन ती ३, ३, १०, १ द्वि. द. 1
l) = स्तोत्र- (= सामन्- इति पाका.)। m) विष, नाप. (हाल-विशेष- [वा.]। n) 'ओप' इति वीथं. 1

वर्तमाना(न-अ)कं-भ^०- भम्
 केजो २५
 वर्तयन्- नयता^० काट ४०, १२,
 गाट १,२१,७, -यन् वैश्री १७,
 १८.८, आपध २,२२,२, २३,
 २, विध २८, ५०, हिध २, ५,
 १३२, १५७
 वर्तयित्वा वीथी २५, २९ ७
 वर्तित्- पाठ ४, ११९, १४१,
 -र्तित् काथी १६, ३, २९, ३०
 वर्ति-म(त>)ती^०- वी. काथी
 १, ४, ४, ६
 वर्ति वतुल- लम् वीथी ३३३
 वर्तितव्य- न्यम् वाप १३, ५४,
 १७, ७७
 वर्ति(त>)थी- वी वृदे ३, १२
 वर्तिगु- पा ३, २, १३६
 नृवर्तिर्त्- र्ति आथी ४, १५, २,
 अग्रम ६, ९, मा ३, २०
 वर्तुल- पाठभो २, ३, १०९, -लम्
 अय २५, १, ३, ७, १०
 वर्मन्- -मं आथी ४, ९, ३,
 काथी ५, १३, २, ५, आपथी,
 -नृमन् आपथी २, ३, १३,
 ६, ५, वीथी १, ११ ४०, २०,
 ९ ९, माथी, -मन्वि काथी ८,
 ३, २७, ९, ११, २४, आपथी
 ११, ६, १३, माथी, -ल्वन्वी
 आथी ४, ४, २, ३, शाथी ५
 ६, २, ३, आपध १, २४, १२,
 हिध १, ६, ६१, -मन्वो आपथी
 ११, ६, १३, वीथी २१, १४.

२२, २४, ८: २, आपध ५, २३,
 -नृमन्वि वीथी १४, ७, १६, ४,
 अय ३२, १ १३, अय ६, ६७
 वर्त्मा(ल्व-अ)भिहोम- भम्
 वैताथी १५ १०.
 वर्तान- आ. या ९, ८^१
 वृत्- वृता आपथी १७, ७, ८^१.
 वृत्, चा(वप्रा)^०- पाग २, ४, ३१,
 -त वायुथी ४, १०३ १,
 आसिध ३, ७, ३ १८, वीथि २,
 २, १, कय १, ८, १२, वीथि ९७,
 १०४, -तम् काथी १७, ५,
 ३, वीथी २, ३. ६, वाथी ३, ३,
 ३, ५, वैथी, या २, १४^१, ११,
 २, -तस्य वप २, ७, २^१, -ता
 वैथी ११, ८. ५, अय २३, ३, २,
 -तात् साङ्ग ७, ४, पावा १, ३,
 ९, -तात् वाथी ३, २, ३, २०,
 -ताम् द्विथी १२, १, ३३, अय
 ५०, १, १, -तायाम् आथी ४,
 ८, १८, आसिध ३, ५, १ ९,
 १०, वीथि १, १०८, ९, -ते
 शाथी ३, ४, २, वैथी १६, ९.
 १०, अय ४८, ११६^१, आपध,
 -तेषु आपध २, १७, १६, हिध
 २, ५, ४४, -तो काथी १५, ६,
 ३०
 वृत्-ल्व- ल्वात् वीथी १२, १, २९
 वृत्-निपातन- ने पावा ७, २,
 २६
 वृत्-गूल^०- लम् वैथी ११, ९ :
 ३

वृत्त वृत्- -वन्तम् अय २२
 १०, ३
 वृत्त नय-सयत्त- भम् वैथी ३,
 १ ३
 वृत्त वय-सयत्त- वा विध ८,
 ८
 वृत्त सादृश्य- न्यम् आपध १,
 २०, ८, २, २९, १४, हिध १, ६,
 २२
 वृत्ता(त श्वा)कार^०- नम् अय
 १९^१, २, ३
 वृत्ता(त अ)न्त- गाट वैथी
 २, ८ १२^१, वीथि २, १, ६,
 -न्तात् काथी २५ १४, २७
 वृत्ता(त अ)न्त, न्ता^०- न्यम्
 नाथि १, ६, ४^१, -न्तात् वैथी
 ९. ३८.
 वृत्तो(त-क)वं कण(त>)
 ला^०- ला वैथी ११, १ १४
 वृत्ति^०- पाग ४, २, ६०, ४, १०२,
 -तय विध २, १०, मा २, १, ६
 ५, माथि १, ६^१, वीथि ५९^१,
 पावा १, १, ७०^१, -वि काथी
 २०, २, १४, द्विथी १०, ३, ६८,
 लाथी ८, १, १३, ५, १५ १०,
 ११, २, ४, निम्, अय २५^१
 २५२, २६२, वीथि ३, १, ३^१,
 माथि १, १ ४^१, १३, ५^१, वीथि
 ६६^१, -त्तिमि वीथि ३, १, १,
 २, १३, -त्तिम् आसिध २, ७,
 १० ३, वाध २ २२, अय १०,
 १५८^१, आपध, वाप्रा १३

a) वृत् > पत्त उप = पूर्वापाठान्तर १ b) पति वैप १, २५१६ ० ६ । c) = वीथ-दसा ।
 d) = [उत्सया उपरिभागे] उत्तविष्टन मेसला- । e) विप (अभितन्) f) वैप १ ६ । g) भाग ।
 h) भाग (आवाट), विप, नाप (अदस् [क्या १६, ७४ प्रम्]) । i) = प्रयोगदर्शन इति रूढ । j) = वृत्- ।
 k) वत् । l) 'त्वा' इति पाठ २ वनि शोध (तु वीथि) । m) 'त्वा' इति लाघ । n) पत्त > वृत् ।
 o) भाग, नाप (अन्व विदोप [पाग ४, २, ६-], आजीविता- [विध २, १० वाध २, २० प्रम्]) । p) = अन्वो
 प्चारण यमाण [इतिदि-] ।

४९^{१०}, -सी^० प्रया १३, ४६,
माशि १, १, -सीनाम् वीशि
६०^०, -सि निम् १, ६:९,
-सि ५ सि वीष ३, ३, ७, -सी
प्रया ९, ६, -स्या निम् १, ६
७^०, २, १ १०, वाष २, ६,
वीष १, २, ७, ३, १, ३
दासै- पा ५, २, १०१,
-सैम् आश २, ८, ३, ५
वारिक- पा ४, २, ६०, ४,
१०२
वृत्ति-कर्षित- -त वाष २९, १६
वृत्ति कार^० - र वीशि ४५,
आशि १ ३, -रा आशि ६, १,
-राय आशि १, २, २ २९,
वीष ३, ९, ६, भाश ३, ११: ३,
द्वि २, २०, १
वृत्ति इच्छ- -पात् लाभी ८, १,
८, निम् ६, १० २६
वृत्ति श- श राष ४१४
वृत्ति श्लेष- इम् वाष ३९५
वृत्ति श- श निम् २, १ ३६
वृत्ति-तस् () उनिम् २ २४,
४ ३३, ५ २३, ६ १७, ७
३४.
वृत्ति शृङ्खल- -वचम् पावा १
१, ६९
वृत्ति प्रदेश- -सा निम् १, १:२२
वृत्ति श्रेष्ठ- -क्षे वीशी २४, १३
८
१ वृत्ति मूल- इम् वीष २८,
४०
२ वृत्ति मूल^०- ल वाष २६२
वृत्ति-मोनि- -निम्नाम् निम्
२ १ ३२

वृत्ति विनाय- -गात् लाभी ८,
१, १५
वृत्ति-विशेष- -व पावा १ ३,
९, -पात् वाष १५८
वृत्ति वेद-प्रवर्तिन्- -रितीनाम्
वीशि ६५
वृत्ति समवाया(य-अ)र्थ- -यं
पाप्रवा १५
वृत्ति-सर्ग तायन- -नेषु वा १
३, ३८
वृत्ति सामान्य- -येन वा २, १
वृत्त्य(ति अ)-तर- -रे श्रमा १३
४७
वृत्त्य(ति अ)पेक्षा- -आ लाभी
२, ७ १०
वृत्त्य(ति-अ)सत्रा(श्र-आ)वपना
(न-अ)वृत्तिमा-भ्रान्त-स्थीत्य-
वर्णा(र्ण अ)नाच्छादना(न अ)
योरीकार मैशुमेष्ठा कैशवेन-
-नेषु वा ४, १ ४२
वृत्त्य(ति अ)र्थ- -यम् मीम् १२
१ ३०
वृत्त्य(ति अ)विरिष्ठति-काम-
-मा गेर ४ ८, १९, १, १४

वृत्- √वृत् द
वृत्त- √वृ (वर्णे) द
२ वृत्त-, वृत्ति- √वृ (वाच्छादने) द
वृत्त-, वृत्ति- प्रथ √वृत् द
वृत्त्य- √वृ (वर्णे) द
वृत्त(वया)^०- पाउ २, १३, -य वाधुशी
४, ६४^०, १, अय ४८ १००^० १^०,
वृदे ६ १२१, निम् १, १०^० १^०, वा
२, १६६, १७, -प्रम् आशी २,
१७, १५^० ४४, वीशी, वीशी
१७, ४९ ९, १८, २१ ११,

अय ४८, ९०^०, वृदे ६, ११२,
१२२, निम् २, १०^०, -प्रथ
पुंलाभी १२ १६, १, १३, १२,
३, काशी, कु २७, २, वृदे २,
६, -पुंवा आशी ३, ८, १,
माशि १२१, -पुंवाणि आशी
१, ५, २९, ४, ८, ८, ५, १,
१७, शाशी, निम् १, १:१९,
शुभ ३, १६६, चात्र ४१^० १,
-आन् वीशी १३, ४२ ९१,
-वाय पुंलाभी १८, ६, २, १२, ३,
वाधुशी ४, २ ३, वा द, २०,
-पुंवे आशी १६, ३५, १, वीशी
१९, १ २, द्विशी ११, ८, २१,
-पुंनेषु आपशी १७, ८, ७, १९,
२३, १, माशी
पुंश्रुत वृत्^०- -वृत् आशी १२, ९,
१०, वीशी, -सुरे आपशी ३,
१६, ३, वीशी ७, ५ १०, माशी
५ २, १, ४१, वा ७, १३, -वृ
आशी ५, १३, ४, वीशी २, १७
१८, द्विशी ३, ४, १६, अयाय
३, २^{१०}
वाश्रुत^०- -स्म लाभी ७, १, ३,
शुभ ३, १० १६, १७, -रे
लाभी ७ १, ५
पुंश्रुत-वृत्^०- -वै वीशी ८, १६, १,
काशी १७, १२, १५ आपशी
पुंश्रुत-वृत्- -व्यव वा २, १०^० १^०
पुंश्रुत निर्माण- -वैव वाष २ १०
पुंश्रुत भया(य-अ)र्वित- -त इदे ६,
१०९
पुंश्रुत वृत्- -व्य अय ४८, १४०, वा
७, १०
पुंश्रुत शब्द- -इया वृदे ६ ११३

a) वृ २३०० प १ । b) वाप । c) उप < प्र(प्र/ई) द । d) वय ।
e) वेप १ द । f) = मेप-1 g) = धन । h) 'वृद एति पाठ । कनि शेष (वृ पाठ ३४, १५) ।
i) = साम विशेष । अन्तर्मे अण् प्र उत्स (वा ५ २, ६१) ।
वैप २ २४

वृष्ट हति^० - (> वाप्रहत् - पा)
पाग ५, २, ६१.

वृष्ट हत्^० - न्वाय वीथी १४,
२१, २, -स्वे प्राप्ता २, ४३,
-स्वेपु श्रमा ८, २७.
वृष्टाहत्^० - स्वाय आथी ६,
४, १०, शीथी ३, ३, ४, ९, ९,
३, काथी.

वृष्ट हत्^० - वा ३, २, ८७, पाग ५,
२, ६१, -स्व पाता ८, ४, २,
-स्वे शीथी ३, ३, २, काथी २५,
४, ४४, आथी, वाथी १, ७, ३,
२५, ५, ३५, -वृष्टाम् वेताथी ५,
१४, या ७, २३, -वृष्टगा आथी
५, १०, २८, शीथी, -वृष्टगा
आथी ३ ७, १३, शीथी, -हृणी
माथी १, ४, २, ५, -वृष्टव
आथी २ १८, १९, ४, शीथी,
-हृनि. आथी ३, ७, १३, १,
पाता १, १, ३९, -हा आथी २,
१८, १८, आथी ३, १, २, १, ४,
१६, २, १०, वीथी, हिथी
११, १, २२, वृ २९, ५ वृदे
४, १२६, ६, ११०

वृष्टनी - वागम ५३

वृष्टव^० - वा ५, २, ६१, -अ
शीथी २, ५, १२, आथी,
-वृष्टम् काथी १५, ५, १०, वृष्टा
३, ९२, -शी^० आथी १, ५ ३२,
शीथी १, ८, १, १९, १२, काथी,
काय ४७, ९^०

वृष्टी^० - श्रो तेषा
४, २८, -श्रीम् वीथी २६, १८

१, -श्रीम् वीथी २९, ८ १८,

वाप्रहत्-वरत्न- ने माथी

५, १, ५, ८

वृष्टवदन्-तम^० - म माथी १८,

८, ११, -म आथी २२, २८,

१०^०, वीथी १८, १४ ३, १७

१८^०, हिथी २३, ४, ५६^०, -मम्

शीथी २, १५, २, वेताथी ३०,

१६, -मा वृष्ट ३, २३८, -मम्

आथी ८, ४, १, शीथी १२, २६,

१, १८, १५, ५

वृष्टव-अवद- देन निम् ७, १०:

२३

वृष्टयन्- पाठमो २, १, २८०

वृष्टव्या ✓वृ(वस्ते) द.

वृष्टव्या ✓वृ(आपतादे) द

वृष्टा^० शीथी १२, १४, १, दाय ३, १,

४३, अथ २९, विष ६३, ४४,

माथि ५३, पाग १, १, ३७

वृष्टा-कर्मन्- माथि आथ १, ४,

२०, हिम १, १, १२९

वृष्टा-वृसर-संस्वार पायसा(स-अ)

पूय मासा(स-अ)वान- नम्

अथ १५२

वृष्टा-कृसर सवाय पायसा(स अ)

पूय-शकुली- शी ३थ ४३३,

४६०

वृष्टा(धा-अ)शि^० - शिना अत्राय ३,

८, -शिनि वीथी १३, ४३

२२, -शिम् वीथी १४, १६ ३,

१८, १७ २, ६, ११, ४, आथि ३,

७, १ ५^०, ८, १ १४^०,

वीथि १, १४ १३, १७ ४,

-श्रीम् वीथी २९, ८ १८,

-श्री वीथी २४, २३ १

वृष्टाथि ससर्ग- मां. वीथी २३

४ २९.

वृष्टा-वेष्टा- एवम् विष ७१, ६९

वृष्टा-दान- नम् वाप ६६, ३१

वृष्टा(धा-अ)न्- अम् वीथ ६८

११.

वृष्टावा(स-अ)वमने(न उ)

स्वान-अवपेत- माथि वीथ १७,

१७.

वृष्टा एक- व गोष्ट २ १, ५ प्राप

२, ३, १८.

वृष्टा-वृष्ट- अ विष ५१, ६०

वृष्टा मांस- तम् आथी ७ २६,

८^०, नि ५१, २०, -साथि

विष ५१, ६९

वृष्टा(धा आ)वमन्- अमे विष ५७,

५०

वृष्टा छिद्र-> वृष्टि- श्रिन विष

८२, ६

वृष्टा-वृष्ट- वाचम् गोष्ट ३, ५

१९

वृष्टा-धमम् वीथी २६, ९ २४

वृष्टा वृष्ट^० - नम् या ११, ४

वृष्टशि^० - (> वाप्रहत् -> अ- वा)

वृष्टि. अथ ४८, १९^०

वृष्टि- (> वृष्ट वृष्टि-> वृष्टि-)

पा) पाग ४, १, १०, ५, १००

वृष्टि- वृष्टि- प्रथ ✓वृष्ट द

वृष्टि-वृष्टि [?] यथोन् वृष्ट ६५

✓वृष्ट^० पाया भा आथ वृष्टी

जुरा उम मायावाम्, वृष्टी

a) वृ पाया । वृष्टवन्- इति भाष्येण प्रथ । b) वैप १ द । c) पाथे वैप १, १५५३ ० द ।
d) = अथयभाग विशेष । e) *त्रा^० इति पाठ १ मनि शोध । f) पाथे वैप १ २४९५ ० द । g) = अथयि
शक्ति- मने वन । h) वृष्टा^० इति पाठ १ मनि शोध (वृ वीथि) । i) दस > दस > वृष्ट । j) तप
< ✓वृष्ट (अभिषेच) । k) वृ १८१५ द । l) पाठ १ वृष्टव(इद अ)वचय-> पयो इति शोध सभाव्य
(वृ सत्र वीथ ४, ५ - ७) । m) वा २ १७ वा १ ३, ९१, ९२, ३ १५५, ७, २, ५९ पाया ६, ४ ५२ परावृष्ट द ।

आधौ ३, ४, १०, ६, ११, ७,
 वीथी, वर्षतः शोथी १२, २४,
 २१, वर्षन्ते द्विथी ३, ८, ४८,
 अण ६२, २, ४, शैशि २०१,
 पूर्वार्धत् आधौ १, ७, ७, शोथी
 १, १२, १, पूर्वार्धत् आधौ ३,
 १३, १५^०, आपधौ ३, ४, ६, ९,
 १०, १५, १७, १, वीथी, वर्षत्
 आधौ ४, ४, ४^०, वर्षन्त्याम्
 वीथी ३, ५ ११^०, पूर्ववन्तु
 आधौ २, ८, ३, शोथी ९, १८,
 १, वा १, १०, पूर्ववत् > स्वा
 आधौ ५, १६, ३, शोथी १,
 १२, १२^०, ७, २४, ६, आपधौ
 ३, ४, ६^०, वीथी^० ९, १४
 २०, १६ : १, भाधौ^० ३, ४,
 ६, ४, १७, १, ६, १२, ४,
 माधौ १, ६, १, २४^०, शोथी १,
 १, ५, २०^०, द्विथी^० २, ३,
 ४६, ६, ३, ८, आपध २, ६, ११^०,
 आप्, वीथ २, ६, ६^०, शोथ २,
 १०, ४^०, आशिथ १, १, ४ :
 ३५^० द्विथि १, ८, ४^०, पूर्ववत्, > धां
 शोथी १४, २३, ४, आपध २,
 १०, ८, श्राधा ७, ३३, ३४, वैत्रा
 ३, ८, पूर्ववत् आधौ ७, ४, १३,
 शोथी ६, ४, ११, ११, २, ११ x x,
 पूर्ववत् अण १५, १, वा २,
 १७, पूर्ववन्तु श्राधा २, ४६,
 शैशि २३५, पूर्ववत् शोथी ५
 १४, २६, द्विथी ९, २, २४, वा
 १०, ४७, वर्षत् विथ १०, १२,
 वि २, ९,
 पूर्वविधीम^० शोथी १, १२,

१२, आपधौ ३, ४, ६, वीथी ९,
 १४ २०, १६^० १, माधौ
 सन्वृष्ट श्राधा ८, ४१^०,
 पूर्ववृष्टव् आधौ ४, १, २३,
 वीथी ३, २०^० १९, आप्
 पूर्ववत्^० वीथी ६, ४ ५, वाधुथी
 ४, २९ ११
 पूर्ववृष्टे आधौ ३, ८, १, ७, ४,
 ३, ९, ५, १६, शोथी, वाधु
 श्राधा ५, ३८^०, पूर्ववृष्ट शोथी
 १४ १६, ९, १७, ८, ८, पूर्ववत्
 शोथी १०, १६, ६, अणुष काण
 ४१, १८^०, पूर्ववत् आपध २,
 ४, १४, काण ४१, १८
 पूर्ववत् आपधौ ४, ५, ५,
 माधौ ४, ७, २, द्विथी, वर्ष-
 वत् आपधौ ७, २४, ११, वीथी
 १७, ५० ५, वीथी, वर्षवन्ति
 वीथी २७, ४ : ३०, वैत्राथी
 २४, १^०, निम् ९, १^०
 ७^०, आपध २, २४, ३, द्विथ,
 पूर्ववत् आमिथ २, ५,
 ३० २१, वीथ ३, ७, १६,
 पूर्ववत् आपधौ ५, ६ ३,
 वीथी २, १४ १५, द्विथी,
 वर्षवत् वाधुथी ४, २९
 १२^०, पूर्ववत् वीथी १०,
 ११ २, माधौ ६, १, २,
 ३, २, २, १५ वाधुथी,
 पूर्ववत् आपधौ ७, ६, ५^०,
 वीथी ४, ७ : १५^०, माधौ ७,
 ४, ७^०, माधौ १, ७, ३, ४०^०,
 शोथी^० १, ६, २, १, ६, ११,
 द्विथी ४, २, ४^० x x, वा १०,

४०^०, पूर्ववत्, > वा काथी
 २, २, ८, १२, आपधौ,
 वर्षवत् वैत्राथी ३९, १३^०,
 वर्षवत् वा १०, ४७^०,
 वर्षवत् निम् २, ९ ३३, आप्
 ४, ८, १०, माण ११ ८, वैथ,
 वर्षवत् वीथ ४, १, १०^०,
 वर्षवत् शोथी ४, १५, ७, वीथ
 ५, ४, १०
 वर्षवन्ते शोथी ३, ८, २२,
 पूर्ववत् आपधौ १, ६, १, ५^०,
 ३, ४, १५, ६, ११, ५, शोथी
 पूर्ववत् वृथे ६, ९७^०,
 पूर्ववत् आपधौ ६ ११,
 ६, शोथी १, १४, १, ११, १२,
 पूर्ववत् श्राधा १, ९, ५,
 शोथी १, १४, १४, ६, १, ५,
 पूर्ववत् आपधौ ७, ८, ३,
 १२, १५, शोथी १८, १८, ३,
 आपधौ, पूर्ववत् आपधौ
 १२ ७, १०, १०, २, वीथी ७,
 ५ २२, १४, ४ ३७, माधौ
 वर्षवत्- पाण ३, १, १३४, -नाथि
 वीथी २२, ८ ३९, -नाथ वा
 ४, १९, -नेन वीथी १०, ५१,
 १४^०, -नेषु वीथी २२, ८ :
 २८.
 वर्षमान ना^०- पाण ४, १, ८६^०,
 पाण ६, २, १६०, -न आपधौ
 ३, १२, १, भाधौ ३ ११, १,
 द्विथी २, ६, १४, आपध २, ६,
 ११^०, वा १४, ३६, अण ३, ४, १,
 -न आपधौ ३ ८ २८, आपध
 २, ६, १५, आशिथ १, १, ४ २०,

a) पाने वैथ १, ६२० इट्ट । b) पान वैथ १ पूर्ववत् मा २, १४ इट्ट । c) आप्पा वा २, ३, ९

प्रथु माण १, ८, २, ४, १४ ३, १, २३ वैत्रा ४, ११, ४ । आपध २, ६, ११ तु वर्षमानो भूवाण इति पाने । d) पाने वैथ १ विधेय मा ४, ७ इट्ट । e) पाने वैथ १ वर्षवत् मा १२, ४४ इट्ट । f) न्त इति पाठ इति सोप (तु आन) । g) विथ, नाथ (नाथनी [श्राध उन्निम् प्रथु]) । h) स्व- (तु पाणम्) ।

वीर्य-ना आध्री ५, १२, १५;
 अथ ७०^१, २, ३; श्राप १, ४,
 ७४xx; शुभ्र १, ४७१; ५, २०;
 अथ १५, १०; श्राप १६, २४;
 उनिस् १: १३; पिं ३, १४;
 -ना: हिथ्री ६, ५, १८; -नात्
 उम् ४, १९; -नाम् आध्री ५,
 २०, १७; कप २, ६, १०; -नात्
 हिथ्री ३, ८, ४८; -ने आध्री ७,
 ९, १; १२, १; -नेषु आध्री
 ६, ५, १.

वर्धमान- पा ४, १, ८६.
 वर्धमान(ग-म)ङ्- -ङ्: अथ
 ६८, २, २४.

वर्धयत्- -यत् आध्री ८, १६, ११;
 सु ३०, ७.

वर्धयमान- -न: वा १०, २७.

वर्धयितुम् विध ५१, ७५.

वर्धयित्वा आध्री १, ६, ७, १०; वैश्व.
 वर्धित- -तानि लैण् २, १: १९.

वर्धिसु- पा ३, २, १३६.

वृचवृषत्- -वन्त: श्राप ९, ४३^०.

वृषावृषान, ना- -न: आध्री २, १८,
 १९; ३, ८, १, आध्री ५, ६, ३;
 ८, २०, ५^०xx; वीथ्री; -नम्
 वीथ्री ८, २: १; हिथ्री ९, १, १३;
 -ना आध्री ५, ५, १२; आध्री ७,
 २, १०; आध्री; -नी कौम्
 ९६, ३; ९७, ६.

वृषावृषान-मभृति- -नीनाम् शीच
 ४, ८५

वृषावृषत्- -व्यात्सु श्राप ९, २६१.
 २वृष, दा^१- पा ६, ४, १५७; पाग

२, २, ३८; ५, १, १२२^०; १३३;
 -द्वा: आध्री २, १३, ७१; आध्री
 २२, १२, २०१; वीथ्री; -द्वम्
 आध्री ७, ८, ५; हिथ्र १, २८; शुभ्रा
 १, १६९xx; श्राप २, ५, ४; ३, १,
 ८; माथि १५, १; पा १, १, ७३;
 पावा १, ४, १; -द्वस्य वैश्व ३, २१:
 १०; वाध २५, २; हिथ्र १, २९;
 ३०; पा ४, १, १६९; ५, ३, ६२;
 पावा ४, १, १६३; -द्वा सु १०,
 ४; -द्वा: आथ १, १४, ८;
 आथ २, २९, ५; गौध ९, ६२;
 -द्वाम् पा ४, १, १४८xx; पावा
 ४, ३, १५४; -द्वान् गौधि २,
 २, ११; आथ २, ४, १२;
 -द्वानाम् आथ १, १३, १६;
 १५, १; २०, ८; २, २९, १४;
 हिथ्र १, ४, ६०; ६, २२; -द्वाम्
 भाथि ८०१; -द्वाय गौध २, ३,
 ५०; गौध २६, १२१; -द्वापा:
 आथ १, ७, २१; वैश्व ३, २१: १०;
 -द्वे शंभ २७०; गौध ३, ८;
 -द्वेन शीच ४, ५५; -द्वौ माथ्री
 २, २, १, ५०; वाथ्री १, ४, ४,
 ४११; निस् २, ९: ३२.

वार्द्धक- पावा ४, २, ३९.
 वृद्ध^१ पा ४, १, १७१; ३, १४४.
 वृद्ध-गर्भ^१- -गो: अथ ६१, १,
 १.
 वृद्ध-ग(गं>)भा^१- -भां माथ
 २, १८, २१.
 वृद्ध-पर- -नाणाम् आथ १, ५,
 १३; १३, ३; हिथ्र १, २, १३;

४, १७; -राय आथ १, १४,
 १४; हिथ्र १, ४, ४६; -रे आथ
 १, ७, २९; हिथ्र १, २, ८६.

वृद्ध-ना- पा ५, १, १२२.
 वृद्ध-न्य- पा ५, १, १२२; -स्वात्
 गौध ३, २, १३; पावा ४, १,
 १४७; १५०; ३, १२७; -खे
 आथि २, ४, ५: २३; गौध ४,
 ७, ८.

वृद्ध-गुण^१- -ग्न: आध्री १५,
 १६, १०.

वृद्ध-पुत्र-> -त्रिन्- श्री अथ
 ३५, २, ५.

वृद्ध-अमालामह- -हाप शंभ
 ११६: ७३.

वृद्धममालामही- -ह्री शंभ
 ११६: ७४.

वृद्ध-भारि-नृप-न्नात-स्त्री-रोगि-
 यत्-चक्रिन्- -क्रियाम् विध ६३,
 ५१.

वृद्ध-वत् पावा ४, १, ९०.

वृद्ध-वत्- -वत् निस् २, ११:
 २५.

वृद्ध-व्यस्^१- -दा: आध्री १६,
 १, ५१^१; अथ ३८, ३, ५.

वृद्ध-वासि(न>)नी^१- -नी वा
 ५, २१.

वृद्ध-वृथिवत्- -यम् आथि २,
 ३, ५: २११^१.

वृद्ध-वृषवत्- -व्यम् आध्री ४,
 १२, २१^१.

वृद्ध-शील-> -त्रिन्- श्री
 गौध ३, ५, १; आथ ३, १, २१.

a) क्व. । b) = सपा. श्र ४, २, १७ । ही १८, ३, २२ तु वावृषन्वा: इति पाठे. । c) पाठे.
 वेप २, ३३३. 'न: तैवा २, ५, ८, ३ टि. इ. । d) विप., नाप. (संज्ञा-विशेष- [पा. प्रथ.] । e) तु. पाठम्. ।
 f) व्यप. । क्व. । g) वेप १ इ. । h) व्यप. । i) उप. = वावृषन्वा. । j) सपा. आध्री ४, १, ५
 वृद्धवया: इति पाठे. । k) नाप. (वृद्धे-) उग. । l) = गवा. तै ४, ४, १२, २ । मै ३, १६, ४ तु वृद्धवृषन्वा
 इति, काठ २२, १४ आध्री ४, १२, २ वृद्धवृषन्वा इति च पाठे. ।

घृद्ध श्रयस्^० - पाठ ४, २२७,
 -पैवा श्रापश्री १४, १६, १,
 माश्री ४, ३, ४३, हिथी,
 घृद्ध सजा - श्रापाम पावा १, १,
 ७३
 घृद्ध संप्रदाया(य-श्र)नुष्ठित-
 -तम् शाष्ट २, १०, ७.
 घृद्ध सेविन्- धी विध ३, ७७
 घृद्धा(द-अ)प्र^० - प्रम् वैष्ट ५,
 ६-२१
 घृद्धा(द-अ)मुशात- त वैष्ट ७,
 १ १.
 घृद्धा(द-वा)घु^० - सुम् बौधी
 ६, २७ २२, श्रापम १, २, ६,
 आमिष्ट १, २, ३ ९.
 घृद्धा(द अ)वृद्ध- श्रापाम्
 पावा ४, १, ९५
 घृद्धा(द अ)वृद्धा(द-अ)वर्षं स्वर-
 ह्यपन्-स्वरण^० - ये पावा ४, १,
 १
 घृद्धो(द-ठ)श- पा ५, ४, ७७
 घृद्धि^० - पा ५, १, ४७^०, -पैद्वय
 बौधी ६ २७ २३, श्रापम १,
 २, ६, आमिष्ट १, २, ३ ९, -दि.
 काष्ट ४, ३, ३, श्रय ३२, ४, ३,
 ६४, ९, ६, ६८, २, ३५, ५६,
 विध ६, ११^०, काष्ठ, पा १, १,
 १, ७३, ६, १, ८८x४, -द्विम्
 श्रापम २, १०, ८^०, बौध ४, २७,
 १५^०, माष्ट २, १३, ६^०, श्रय,
 काष्^० २, ४२, ४८, ५०,
 -द्वी बौधी ७, ५ २१^०, ८, १
 १२^०, -द्वै निम् ३, ५ २१,
 काष्ठ ६, ६, पावा ४, ४, ३०,
 ६, १, १०६, ४, ४७, ७, २, ३,

-द्वी निम् ३, ५, : २४, श्राष्ट
 ४, ७, ३, काष्ठ ४४ ११, कम्
 १, १, १२^०, श्रय, पा ६, ३, २८,
 -द्व्या वप्रा ३, ४, ३, -द्वै काष्ठ
 ४२ १६, माष्ट १, १ १^०, बौध
 १, १०, ३, ४
 घृद्धि-कट्ट^० - त्ताम् श्रय २, ४,
 १
 घृद्धि कर्त्त^० - सँग वा २, २४,
 ९, २५, १२, ९
 घृद्धि-गुण- पाग २, २, ३१,
 -पौ पावा १, १, ३
 घृद्धि प्रहण- यम् पावा १, १, ३.
 घृद्धि(अ>)जा- जा बौधी
 २५, ३० : ११^०
 घृद्धि-तरव-प्रतिषेध- अ पावा
 १, १, ५६
 घृद्धि-दर्शन- नाव मौष्ट ११, ४
 ३९-
 घृद्धि निमित्त^० - चस्य पा ६, ३,
 ३९, -तात् पावा ८, २, ४२
 घृद्धि विन्द- अकार कम् २, ४,
 २
 घृद्धि-पुनराधेय- यम् बौधी
 ३, ३ १३.
 घृद्धि पूर्व^० - तेषु श्राष्ट २, ५, १३,
 बौध ३, १४, १९, गोष्ट ४, ३,
 ३४.
 घृद्धि प्रतिषेध- अ पावा ६, १,
 ८८, ७, ३, ६५, -चरय पावा ७,
 ३, १५
 घृद्धिप्रतिषेध प्रसङ्ग- अः
 पावा ३, १, ३०
 घृद्धिप्रतिषेधा(ध-म)तुष्ट
 पति- ति पावा १, १, ३

घृद्धि-यलीयसव- -रवान् पावा
 ६, १, १२.
 घृद्धि मत्- अस्तु कम् १, ४, २
 घृद्धिमद्-विधि- -धौ पावा
 १, १, ७२
 घृद्धि विंशतिक^० - कम् श्रय
 ४ २१
 घृद्धि-विधान- -तम् पावा ६, १,
 ८४
 घृद्धि-विधि- -धि पावा ६, १,
 १२, -धौ पावा १, ४, ६०, ६,
 १, १३, ८४, १०, ७, २, ११४.
 घृद्धि-सवर्गदीर्घ पूर्वसवर्गा(खं-
 आ)देश- -ता पावा ६, १,
 १००.
 घृद्धि-स्वर- रौ पावा १, ४, २,
 ४, १, ४८
 घृद्धि(दि-अ)भाव- न्य विध
 ६, ५, पावा २, ४, ७०
 घृद्धि(दि-अ)र्थ^० - यम् पावा २,
 ४, ७०
 घृद्धि(दि प्रा)दि- -दिष्टु पावा
 १, १, १
 घृष्ट^० - घृष्टे श्रापश्री १७, ९, १^०,
 बौधी १९, ६ : ४^०, बौध १, ३,
 ३५, मा ४, १९^०, श्राप ४,
 ६८, ऋत २, ६, ८.
 घृष्ट^० - अ ऋपा ४, ५१, -धास
 श्राधी ३, ८, १, ८, १०, १, शधी
 १७, ८, ५
 घृष्टवत्^० - अत्^० बाधुश्री ४, १८
 ५, वेताश्री १७, ६, माष्ट १, ३४
 १, बौध ९१, १०, -अत्^०
 श्राधी ७, ८, १, शधी १२, १०,
 ९, -घत्तो श्राप १८, २७

a) वैष १ ६ । b) वृष्ट । c) वृष्ट > वृष्ट । d) माष्ट, नाव (अहा-विशेष- [पा]) । e) = वृष्टी ।
 f) = (उपपाराद् घृद्धिमती-) कम् । g) = (घृद्धि-कट्ट-) धर्म विशेष- । h) श्रापित् इति ष । i) = एषा मा २७,
 ४४ प्रम् । ऋ ६, ४८, २ ७ घृष्ट. इति पागे । j) = १ घृष्टवत् (उ वैष १) । k) = एषा इति विशेष- ।

वृधन्- > वृधन्- वन्तम् हिथ्री
 ३, ६, २१, -वन्तो आथौ १, ५,
 ३५, २, १, २५, १८, ३, चाथौ,
 -वान् मीम् १०, ४, २८^०
 वृधन्वती- वती हिथ्री २१, २,
 ४६
 वृधन्^{१००}- -व. आथौ २, ३, १२^१
 वृधवान्- -वम आथौ ३, ८, १,
 -न आथौ २, १५, २, ६, ५, २५,
 चाथौ १०, १०, ८, चाथु १, २५,
 ८^१
 वृधुस्- > वार्धुषि- -वि वाध
 २, ४२, वीथ १, ५, ७९, -वी
 वाध २, ४०, -ये थप धृ३ध
 वार्धुषिक- पावा ध, ४, ३०,
 -क वाध २, ४१^०, थप ३७७
 २०, आपथ १, १८, २२, वीथ
 १, ५, ७९, विध धप २६ हिध
 १, ५, ११, -करय थप ध२९
 ध६१, -कान् वीध १, ५, ८०,
 -के वाध २, ५०
 वार्धुषिक-कद्वय-दीक्षित
 वन्धनिका(क थ)मिनास्त वण्ड-
 -वण्डानाम् विध ५१ १^३
 वृध्ना- वृ- -धम् आपथ २, ७, ८
 वीथु २, १, ४, -धस्य आपथ
 २, ७, ९, वीथु २, २, ४
 वृन्त- -न्वम् वाथु ध, २
 वृन्ता- पाठमो २, २, १४
 वृन्त- पाठमो २, २, १६६, -न्वम्

विध ४, ३^१, या ६ ३४
 वृन्दारक, का- पावा ५, २, १२२, ७,
 ३, ४५, -क. या ६, ३४.
 वृन्दारिका- पावा ७, ३, ४५
 वृन्दारक नाग-जुअर- -री पा
 २, १, ६२
 वृन्दिष्ठ- , वृन्दीयस्- पा ६, ४,
 १५७
 वृन्त- (> वृन्त- पा) पाठ ध, २,
 ८०
 √वृष् पाधा दिवा पर वरणे
 वृश- पाठ ध, १०४
 वृश- -वा ऋथ २, ५, २^२, वृदे ५,
 १४, १९, -वाम् वृदे ५, १८
 √वृ, वृध्- पाधा. तुदा पर छेदने,
 वृधति माथौ ६, १, १४, आपथौ
 १८, ११, १०, वीथौ ध. १ २२,
 माथौ, वृधत माथि ८२^१,
 वृधन्ति वाधुथौ ध, ५१^२ ७,
 वृध्वाभि आपथौ ११, १५ १^{१०},
 हिथौ १०, १ १३, वृध्वाव माथौ
 २, ३, ७, २^१ ०, वृध्, > आ
 आथौ २ ३, २३, चाथौ २, ७,
 १०x४, चाथौ, ऋथा ध ३३,
 वृध्व आपथौ ध, २, ६, वीथौ
 ध १ २७ माथौ ध, १, ७,
 ८^४, ९^२, वीथौ
 वृध्वेत माथि ८२^१
 वृध्वसि आपथि १ ३, २ १६^१
 वृध्विक- पाठ २, ४०, -वृक थप

३२, १, १७, वीथ १३२, ८,
 -का थप ६४ ८, ८, -के विध
 धृ३, ३४.
 वृध्वमान- -वम् वीताथौ १० २
 वृध्वन्- -वात् या २, ६, १२ २
 वृध्वन प्रभव- -वात् थप ध२७^१
 वृध्वना(न-श)मिथ्य-प्रभव-
 -वान् विध ५१, ३६^१.
 वृध्वन्- -ना वीथ १७, ३१^१
 वृध्विया पा ७, २, ५५
 वृध्वि(न् >)ती- -वी ऋथ २, ३
 ८
 √वृष्(वधा)^० पाधा म्वा पर वन्दे
 वृरा आत्म शक्तिवपने वधि
 थप ७०^१, १७, ३ १८, १
 वर्यति वीथौ वृ३, १७ २३ २४
 १३, ३९ ५ वाधुथौ ३ ३८
 ४, ध, १५^१ ११, ७४ ५ ८४
 ४, वीथौ, वर्यति वीथ ९४^१
 १४^१, वा ११, ४१ वर्यति वृ
 ७, ३, वर्यत थप ६५ १ ९
 वर्यन्तु काथौ २ ६ ११ आथौ
 वर्यन्तु वीथौ १८ १८ १६
 दाथौ ९, १, १९^१, माथौ ३
 ५ १५^१, आपथि २ ५ ११
 २७, वर्यत थप ७०^१ ३ ४
 वर्यत आपथौ वृ१६ ११ १२
 १३, १९, २६, ६, ७x४, वीथौ
 वर्य वृदे ८ २ या २ १०
 वर्यियते हिथौ २२ ६ ११^१,

a) वृष १ द्र । b) वृ इति जीम प्रथ । c) = वृषावृत्ति विशेष । d) वामे वृष १ १२८४ १
 द्र । e) माप (रुद्रि) । कुस्ति प्र उस (पाठ २, १२०) । f) = वार्धुषिक । ह्स् प्र उस इति विशेष ।
 g) नाप (गर्होक्तमर्थ) । ठ्स् प्र उस [पा ध, ४, ३० (वैतु पावा ध, ४, ३० < वृधुषि- [< इति] इति
 पाका [वृधुषि- [< इति]] । h) 'वृद्धनिगटाभिनास्तवण्डानाम् इति जीम । i) वृत्ति आपथ पाठ ।
 j) = वृषावृत्त इति भाषणम् । k) = समूह- । l) पाप < वृन्दारक- इति । m) = वृषावृत्ति ।
 n) या ६ १, १६, ८, २, ३६ पराम्ठ द्र । o) परस्पर वामे । p) वाम वृ २२९७ १ द्र । q) माप ।
 r) परस्पर वामे । s) कर्मणि क्तः । t) = ऋथ । u) या ६ ३ ११६ पराम्ठ द्र । v) पाठ ३ वर्यन्तु इति
 वीथ (तु वृष १ वर्यन्ति [वी ९, १, ११) । w) 'व्येत इति पाठ ३ वामे वीथ (तु वर्यन्ति इति आपथी प्रथ) ।

वर्षिष्यति आपथी १९, २५,
 २२, २७, ३, वीथी १३, ३८
 ५, ३९ १६, १०; हिथी २२,
 ६, ४
 वर्षिष्यत् > था* आसिष्ट २, ५,
 १०; ३०; तैथा ३, १०, वर्ष-
 पन्तु वीथी ८, १०. २३,
 वर्षमेव ऋ ६५, ३, ८.
 ऋषिबोधुपत० शथी ४, ४, १४,
 ९, ३
 ऋषुपाथ० ऋथा ९, ४९
 र्वर्षि० -> वर्षिन्- वा ५, १,
 १२२
 वर्षिष्ठ, षा०- वा ५, १, १२२,
 ६, ४, १५५, -ष्ठ. शथी १६,
 २४, १०, वाथी ८, ८, १९,
 वीथी, -ष्ठर् वाथी ५, १३, ३३,
 ६, ७, ८, आपथी, वीथी १२,
 ७ ३०१०, हिथी १३, १, ४६१०,
 द्राथी १५, ४, ६१०, लाथी ५
 १२, १३१०, -ष्टवा वा १२,
 १४१०, -ष्टा शथी १६, २४,
 १०, आपथी, -ष्टा हिथी ७,
 ७, १२, -ष्टान् वाथी ८, ८, २२,
 -ष्टानि वीथी १६, १२: ८,
 -ष्टे वीथी १ १०. ८x४,
 माथी, वा ६, १, ११८, -ष्टे
 वा १२, १४
 वर्षिष्ठ-रवा(ना>)न०- न.
 काथी १६, १, ९
 वर्षिष्ठ समिध्- मिथी वैथ
 १, २९ २
 वर्षिष्ठ(ष्ठ प्र)विष्ठ- षथी

ऋथा १७, ३९.
 वर्षिषीथ० -> ष-प्रथ्व०-
 -स्थे वीथी १८, ४९ ३, ६.
 वर्षिष्यत्- वा ५, १, १२२, ६,
 ४, १५७, -वा वाथी ८, ३, १९,
 आपथी १५, ३, ११, वीथी,
 -व्य वाथी १, ६, ४, ३५१०,
 -वस. आपथी १४, ६, ८, वाथी
 १, ६, ४, ३५१०, ३, २, ६,
 ३०; काष्ठ २, २२, आपथी,
 -वस:ऽ वम हिथी ९, ८, २४,
 २६, २७, -वसा आपथ १३,
 १०, वाथ २४, ५, वीथ,
 -वसि काथी ६, ५ १४१०,
 आपथी १५, ९, ८, आथी, वासि
 २, १६१०, -वासि माथी ५, ३,
 १२, १४, -वासम् आपथी १४,
 २३, ३, वीथी ५, ११. ३,
 हिथी १५, ५, २२, -वासो
 आपथ २१, १, हिष्ठ ६, ९०,
 -वासि आथी १०, १, २१०,
 शथी १६, ५, ११०, आपथी
 वर्षीवसो- सो शथी १,
 १७, ११, १०, १२, २, वापथी
 १५, ५, १०, वीथी, -सो वीथी
 १०, १९ १२, १९, १९, १
 १८, वीथि १, १५. १२, -सोम्
 आपथी २, ३, १x४, वीथी
 र्वर्षि०- वापथ ४, ३९, ५, १, ३९.
 -र्विष् आपथ २, १७, २४१०, वाथ
 १, ४, ६, वाथ ८, ६, ११, जेथ,
 वीथ १४१०, ४३, -र्विष् ऋषी
 २, ९, ३, ४, वीथी १३, ३०

३१, माथी ५, २, ७, ९, -र्षाथ
 आथ ५२, ९, ३, -र्विष् वीथ,
 १३७, २३१, १४१, १८, वा
 २, ९, -र्विष् वैथ १, ५: ३
 र्वर्षिष्- वा ५, १, ३९,
 -कम् माथी ५ २, ६, १९
 र्वर्षि-कर्मन्- म् वा २, ८, १६,
 -मेवा वा २, ८, ७, २२, २३,
 १४, १६, २१
 र्वर्षि-कर्मन्-वत्- वत् वा १०,
 ११
 र्वर्षि-कर्मन्- म् वा ९, २२
 र्वर्षि-काम- म् द्राथी ९, १,
 १९, वाथी ३, ५ २०, वीथ
 ४१, १, वा ९, ६, -मवत् निव
 २, ४. १२, -मा वा ७, २३,
 -माव वीथ २८, १०
 र्वर्षि-काम-मृत्- -कम् वा
 २, १०
 र्वर्षि-कामे(त-र)दि०- -व्य
 आथी २, १३, २०, -दि. आथी
 २, १३, ९.
 र्वर्षि-ज- वा ६, ३, १६.
 र्वर्षि-घात- र्थु आपथ ९,
 १५, ४, हिथ २, ४, ६३.
 र्वर्षि-विग्रह- व् द्व ६३, ३, ७
 र्वर्षि-निर्गिष्- -गिज शथी
 ८ २३, ११
 र्वर्षि-परीत- त कौथ ३८, ७
 र्वर्षि-प्रतिबन्ध- न्थे वा ३, १, ५१
 र्वर्षि-प्रमाण- न्थे वा ३, ४, ३२
 र्वर्षि-वत् श्वा ४, ७, ५१
 र्वर्षि-वर्षम् वीथ ३, ९, ४९०,

a) र्थु मे २, ४, ७ र्वर्षिष् > त इति वामे । b) शोध वामे च वैष १, ७१६ । द । c) वैष १६ ।
 d) वामे वैष १ र्वर्षिष् वै १, ७, ६, १ इति द । e) विष । f) र्थुषेष्ठ प्र उरुषे (वा ५, १, १०५) ।
 g) कम उव = साधु- । h) वाम र्वर्षिष् वै १, ३, ८, २ इति द । i) = र्थुषेष्ठ मे १, २, १५ । मा ६, ११
 म् व् द्व र्वर्षिष् इति वामे । j) = वृष्टि । k) र्वर्षि- इति मापथ प्रथु । l) मत्तो नम । m) मत्त ।
 n) = वारोरे-इति । o) ष्वर इति पाठ १ वनि शोध । p) परस्परं वामे ।

वीध १, ११, २५.
 वर्ष-विद्युत्-रतमयितु-संनि-
 पात-ते गौध १६, ४१.
 वर्ष-वृद्ध-दम् काथो २, ४,
 १६; आपथो १, २०, ५; ६;
 वीथो; -ञ्जा: आपथो १,
 २०, ६; वैथो ४, ७: ५; वाथो
 १, २, ४, ५; हिथो १, ५, ६०.
 वर्ष-वैकृत-ते अप ७०^३, १९, २.
 वर्षा(र्ष-आ)राव-मात-तम्
 अप ५९, १, १९.
 वर्षा(र्ष-अ)वर्ष-र्षम् अप
 ५०, १, २.
 वर्ष-ज- वा ६, २, १६.
 वर्ष-वर्षा-वर्षम् आपथो
 ८, २२, ६; माथो ८, २४, ७;
 हिथो ५, ६, १२; -वर्षस्य निद्र
 ३, ९: ५११; -वर्षा: वीथो
 १२, ८: १२^३; कौथ ५, ५,
 ६१; वा २, १११; -वर्षाणाम्
 आपथो १८, १३, १०; हिथो
 १३, ५, १४; -वर्षाण्य वीथो
 १०, ४८: ९; वाथो २, २, ३, ५;
 वैथो १९, ६: ४०; -वर्ष
 आपथो ८, २२, ५
 वर्षण-गात् वा ९, २२.
 वर्षत-वति काथो १८, ६, २४;
 आपथो १७, २४, ३; वीथो;
 कौथ ३, ९, २४^३; -वर्षत् आपथो
 १९, २६, १^३; वीथो १३, २८:
 ६^३; हिथो २२, ६, ५^३; आमित

२, ५, ११: १२^३; सुवा ३, १०;
 ५, १९; -वर्षत: अप ६२, ३, २;
 -वर्षतम् गोथ ३, २, १६.
 वर्षा-गाथ ४, २, ६३; ५, १, ३९^३;
 -र्षा: काथो ४, ७, ७; आपथो;
 वैथ ३, ६, ८^३; वा ४, २७^३६;
 ७, ११; -वर्षाणाम् वीथो १८, ५२:
 ६; माथो १, ४, १, २७^३; वाथो
 १, १, १, १; -वर्षाण्य: आपथो
 २०, १४, ५१; आपगं; आप
 ४, ५, ७; -वर्षाण्य काथो २,
 १, ३; १६, १, २९; काथो.
 वर्षाणिक, का- वा ४, २,
 ६३: ३, १८; १९, ५, १, ३९; -कम्
 आप ३, ५, १९; गौध १६, १;
 ४०; -का: आपथो ४, १२, १;
 आपथो २०, २३, ११; वीथो
 १५, ३८: १२१; वाथो ४, २९^३:
 ८; -काणि वृदे ८, ६; -काय
 वीध १, ११, २४^३; -काणि
 वीथ २, १०, ४; -काणाम्
 शंथ १६०; -कण्य: काथो ९,
 २७, १; -कै: वीथ २, १०, ४;
 -कै अज १५, ४^३१.
 वर्षा(र्षा-क)र्ष-वर्षो हिथ १, ३,
 २१.
 वर्षा-काल-ले वीध १, ११,
 २५.
 वर्षा(र्षा)दि-वै वीथ २,
 १०, ४.
 वर्षा-एत-तम् काथो ४, ६,

१९; हिथो ६, ८, १.
 वर्षा-भू-भूणाम् आमित २,
 ५, १०: ३; ११; -म् वा ६,
 ४, ८४.
 वर्षा(र्षा-अ)र्ष-वै काथो ४, ५,
 १६.
 वर्षा-वारद-दम् आपथ ६,
 ३२, १; हिथ १, ८, ४३.
 वर्षावारदिक-कम् वै
 १, १४: १५.
 वर्षासु-ज-ज: वावा ६, ३, १.
 वर्षा-ह-हाम् आपथो १९,
 २७, ७; हिथो २२, ६, १८; वैषा
 ३, ५१.
 वर्षाह, हु-स्तम्-म्-
 वीथो २३, ४: १४; -म्
 आपथो १९, २७, ७; वीथो १३,
 ३७: ४४४; हिथो २२, ६, १८;
 -म्बस्य वीथो २३, ४: १३.
 वर्षा(र्षा-आव)व-व-
 आमित २, ५, १०: ३८.
 वर्षित-ता वा ४, ८; ११, ४७,
 -हु: वा ७, २२.
 वर्षिक- वा ३, २, १५४; -वर्ष
 आपथो १२, ११, ३; १३, ५, १;
 वीथो ८, ५: २३; वैथो.
 वर्षम्-वर्षम्^३ काथो ४, २१, २;
 आप १, २४, ८, माथ १, ५, ६,
 वाथ ११, ७; -वर्षाण्य वाथ १,
 ३, ८^३, -वर्षा: काथो १२,
 १४, २१.

a) वैष १ द्र. । b) समाहारे द्रव्य. । c) परस्परं पामे. । d) सवा. शाथ ४, ७, २९ प्रावर्षित
 (परि.) इति पामे. । e) = सवा. ते २, ४, ७, १ । मै २, ४, ७ हु वषवर्षान् इति, काठ ११, ९ वषवर्षान् इति च वागे. ।
 f) वृ २२०७ k द. । g) पा^३ इति पाठः इ वनि. शोधः (हु. O.) । h) वर्षाकाणाम् इति वीथो. ।
 i) = मयङ्क- । j) समाहारे समाधानत्त्वं ट् प्र. । k) विप. (प्रत-). डम् प्र. उंसं. (वा ४, ३, १८) । l) हिथो. पाठः ।
 m) = वर्षा ह- । n) = उच्च- । कौरि मनिः प्र. (वाठ ४, १५२) । o) वैष. < वर्षा: इति (हु. सवा. वर्षा: इति
 पामे.; वैद. PW. प्रथ. < वर्षा- इति) । p) वा. वृथो इतिः । q) वैद. PW. प्रथ. वर्षा इति शोध. ।
 r) भाप. । धा. वेमे इतिः । वैष १ खि ५, ८, २ टि. द्र. ।

वर्षमन्- पाठश्री २, १, २८५; पाग
५, २, १७; -र्षमन् वीथी १४,
१८ : २६; २७; -र्षमना वीथी
१४, १८ : २७; -र्षमन्
आपथी ११, ५, १; वीथी;
-र्षमन् कौस्तु २१, २३५;
र्षमनाम् आथी ४, १०, १;
शश्री ५, १४, ८.
वर्षमन् - गम् कौस्तु २३,
७.
वर्षमन् - पा ५, २, १७.
वर्षमन् (र्ष-उ)क- -कम् निम्
४, ६ : १८.
२वर्ष- पा ३, १, १२०.
वावृषण- -गा: शश्री २, २६५.
१वृष (वशा.)^५ - पाग २, १, ५६, ५,
१, १२२; ६, १, २०३; -ष: माष्ट
२, ७, १५; वृषेष्ट ३, १० : ६;
११ : ३; अष ७२, ६, ५; विष
८६, १५; वैशिशि १७६६; -षम्
कौस्तु ७२, ७; अष ६८, २, १९;
विष ८५, ६७; ८६, ९; १७;
-षयो: वैश्रीका ४३; -षाय
वेष्ट ५, ३ : २२; अष ४०, १,
१३; -षे वीथी २, ५ : २२,
कौष्ट ३, ६, १०; विष ९९, ११.
वृषक- -कः वैश्री ११ :
१७; वैश्रीका १२६; द्राथी ४,
१, ६; लाथी २, १, ५.
वृषकाम- -मः कौस्तु ५९, १३;
अष ६, ८६.
वृषना- पा ५, १, १२२.

वृष-व- -पा ५, १, १२२;
-वाय दिथी २२, ४, १८.
वृष-व- -पाग ४, १, ८६;
-वा: शैत्रा १६, ११५.
वार्षवृष- पा ४, १, ८६.
वृषवृषा(व-अ)तिमाजैन-
-नम् अष ७२, ३, ७.
वृष-व- -जः अष ४०, ५, ४.
वृष-व- -नमः कौष्ठ २, २,
७९.
वृष-वा(न>) - -गासः
आथी ८, १, २५.
वृष-वा(मि- -मयः आथी
२०, १६, १०; दिथी १४, ३, ३३;
शुभा ४, ७८.
वृष-म(न्यु>) - -ष्यवः
शश्री ५, ५७.
वृष-मन् - -मन्त्र वाधुथी ३,
८८ : १२; -मन्त्रः वाधुथी ३,
८८ : ६; ११.
वृषव- -वृषवेष्ट सु १३, ५.
वृषव- -वृषः शश्री ९, १५.
वृष-वारण-मेथी(प-अ)पन्नेवि-
हृग्गुभि-नि-स्वव- -मः अष
२४, १, ५.
वृष-व- -नः आपथी १२,
१९, ५.
वृष-वील- -नः मा ३, १६.
वृष-व- -नः आपथी १८,
१३, ५; वीथी १२, ८ : ११;
वाथी ३, १, २, १७; दिथी १३,
५, १४.

वृषव- -वृषव पा, पावा ७, १, ५१.
वृ(ष>)वा-कम्प- -मः वा
१२, २७.
वृषा-व- > वापांगिर- -रा:
शश्री २, १, १००.
वृ(ष>)वा-व- -मै: शत
५, १, २.
वृषा(प-वा)वि-मुद- -वम्
विष ७१, २९.
वृ(ष>)वा-मोद(न>)नी-
-नी शत ५, १, २.
वृषाव- -वृषाव > रवा
शश्री ९, ५२.
वृषाव- -वृषाव- -मः अष ४६,
५, १; शश्री ९, १६; शुभा ३,
११२.
वृ(ष>)वा-व- -वः शत ५,
१, २; -वम्^७ कौष्ठि ३, ४, २ :
११; ५, ७ : १२; वीथि १, ६ :
७; -वाय शश्री ९, २२; -वैण^७
वीथी १, ६ : १९; २०, ७ : ३;
२४, २५ : १९; वीथी ४, ७ :
२.
वृ(ष>)वा-वील- -नः मा ३,
१६.
वृषा(प अ)व-व- -वादि-
-वीन् वैथी १३, ४ : १.
वृषा-व- > वापांगिर- -वृषम्
आपथी १५, १४, १९; ३; वीथी
९, १६ : १२; भाथी ११, १४,
१५; ३; भाथी ४, २, ७९; वैथी
१३, १६ : ७; वैथी; -व-व

a) वैष १ निर्दिष्टयोः समादेशः इ. । b) वैष १ वर्धन् वी ५, २, ७ टि. इ. । c) विष । तपमवीवः
अण् प्र. (इ. पञ्च. प्रथ्) । वर्धन् इतः तन्माशिवत् इति दारिद्र्यः । d) वैष १ इ. । e) विषोप टि. इ. ।
f) = वृ-व- । g) = [वृषवारा] प्रमुत्त- (वृषवृष-) । h) = वित्त- । i) शश्री का. प्र. । j) पागे.
वैष १, वृषा शी ६, ४८, ३ टि. इ. । k) इ. पागम. । l) वत्त. । m) व्यप. । n) द्रष्ट. > वत्त. । o) = वृषा-
मोदिनी- (इ. वैष १) । p) = अदमन् (इ. शश्री आपथी १, २०, २) । q) = वत्त. मै ४, ९, ११ । दिथी २४,
६, ४ इ. 'वर्षा' इति पागे. । r) 'वर्षा' इति अ. ।

आपथ्री १५, १४, २; माथ्री ११, १४, २, वैथ्री १३, १६, १९; जैथ्री ५, १३, -३ जैथ्री २६: १२.

वार्पाहरे(र-ह)टाहोथ्रीव-

-ये काथ्री २६, ७, ३६.

वार्पाहरे^१- नम् दिथ्री २४, ६, ४^१, ५, १३, -रस्य दिथ्री २४, ६, ४.

वृषिमन्- वा ५, १, १२२^०.

वृषो(ध-उ)रसर्ग- नो: कौथ ३, ६, १, शाथ ३, ११, १, पाथ ३, ९, १, काथ, -नम् अथ १६, २, ३, -नो कथ ३, ७, ६.

वृष्य- वा ५, १, ७.

वृषण^२- पाठमो २, २, १२४, -नम् आपथ्री ९, ११, २३, आथिथ ३, १०, ५: ८, वीथि ३, ८, १^२, दिथि २३ २५, वीथि २, १, १२, -नयो आथो ४, १५, १६, काथ्री २५, ७, २३, कौथ ५, ६, ५, -नो वेथ ५, १२: ९, -नौ विथ ९६, १२, वा १४, ७

वृषर्^३- पाठ १, १५६; -नृपण. आपथ २, १६, १०; माथ २, ७: २६, दिथ २, ७, २, वैसू ४०, १४, -नृपणम् आपथो ७, १२, १४, वीथ्री, माथ्री २, ४, १, ३१^३, -नृपणजा आथो ४, ७, ४^३, काथ्री ५, १०, ८^३, वीथ्री, -नृपणे आपथ्री ५, १३, ४^३, वीथ्री २, १७: १८^३, २५, २० २५^३, दिथ्री ३, ४, १६^३, कौसू ४०.

१४; -नृपणो काथ्री ५, १, २३; आपथ्री ७, १२, १२, वीथ्री, -नृपणो वा १२, ३१^३, -नृपणम् आथो ६, ३, १६, ८, १, २, १०; शाथ्री, -नृपणि. आपथ्री १४, २९, ३; दिथ्री १५, ७, १६, अथाव ५, ६, वा ५, ४, -नृपणमाथो ७, ८, ३; ८, १, १४××; शाथ्री, निम् १, ५: १९, ६, २: १८^३; सु २३, १, वृदे २, ६७^३, ७, १४१, नृपा ६, १७, ११, ४७^३, १४, १६^३, -नृपणम् आपथ्री १५, १, ६, कौथ्री १८, ४०: ८^३, माथ्री, -नृपणमाथ्री ७, ४, १३××, शाथ्री, वीथ्री ९, ३: २४, १०, ६: २, २२, ०. ८, पा ६, १, ११८, -नृपा अथाव ५, ६, -नृपणे आथ्री ३, ७, ९××, शाथ्री वृषण-अथर्व^४- पावा १, ४, १८, -नृपणस्य वैथ्री ३ १५, आथो १, ३, २, आथो १, ३, १

√वृषण्य, वृषण्यति वा ७, ४, २६.

वृषण-वृत्- वन्तौ माथ्री ५, १, २, ११, १२, -नृपान् तैत्रा १३, १३, माथि ६३

वृषण्वथी- -ती माथ्री २५, १४, ११, माथ्री ३, ७, ४, निम् ७, ७ २५, -ती आपथ्री १४, १६, ५

वृषण्वत्-अवाद- -देन निम् ७, १० २३.

वृषण-वसु^५- पावा १, ४, १६, -०सू वीथ्री ७, ३, २^५ नृपणिध^६- निध^६ अथ ४८, १००, निथ १, १०

वृषम(अ^७)- पाठ ३, १२, १, १०, १०, २, २०, शाथ्री ९, १३, १, वैताथ्री, -म नृपणथ्री १, १२, ३०××, शाथ्री, वाथ १७, ८, अथ २६८, विथ ८६, १९, वृ २, १११, आथ १, ५८१, वा ४, ८^७, ६, १०^७, ९, २१^७, शैथि २४८, आथो ५, १५, -मम् नृपणथ्री ५, ५, १८, १०, ०८, शाथ्री, -अथ्य शाथ्री १८, १९, ६^७, वीथ्री, गो २, २३, विथ ८६, १३, नृपा ७, २३, ९, १४, -माथाम् वृदे ३: १४८, -माथ् विथ ५०, २५, -नृपणम् आथ्री ३, ८, १, आथो ५, ५, ८, वीथ्री

वार्थम^८- नम् अथ ४, ५

७, १११ वृषम-अथर्व^९- न अथ ३०^१, ३, १०, -अथ्य अथ ४०, १, १३^१

वृषुपम राज- -जा विथ ३५

५^{१०} वृषम सहस्र-विण्ड- -वृदे वैद ३, १५ १

वृषभो(अ-उ) सर्जन- -ने वथ ३, ७, १.

a) साम्नो हस । b) = वार्पाहरे । उभयपद-उद्धिरिति विशेष । c) वामे वृ २३०९ वृ द । d) तु पाथम । e) = अथर्वकोश । f) वृ इति पाठ १ वनि शोध (तु आथिथ प्रम्) । g) वेप १ द । h) सना षण्णम् <> षणे (ते ३, २, ५, २ तैत्रा १, २, १, ०१ च) इति पाथे । i) व्यप । j) = मेप- । k) वैथि पाठ । l) विथ, नाथ, अथ १ वेप १ द । m) = सूक्त-विशय- । n) = निन- । o) पति वेप १, १०-१९ j द ।



वृषभो(भ-उ)पित०-त्वम् वेष्ट
 ३,१४:२.
 वृष्ट-ये माथौ ५,२,१,१३; कौष्ट
 १४१,१९; या ६,३६.
 वृष्टि०-पा ३,३,९६; पाग ३,४,
 ७४; -एष्य आशिष्ट २, ५,
 १०: २९१; कौष्ट २४, १४१;
 अय ६४,५,३; -एष्ये ष्य ५३,
 ४,५; ६३,४,८; ६५,२,७; -ष्टि:
 ण्माथौ १,७,७,४; ण्माथौ २,
 ७,१८; ४, ८, ३,४; काथौ;
 अय ५२, १, १५; -ष्टिम्
 आथौ ६, ३, ६, ४; ण्माथौ ४,
 ११,१; १७, १३, २, ४; वीथी:
 द्विथौ १२, ४, ४, १; -ष्टे: आशिष्ट
 २, ५, ११; अय ६५, ३, ७; या
 १४, ८; -एष्या ण्माथौ ३, ५,
 ९; ५, २९, ५; माथौ; वाथुथौ
 ४, ४: ८; -ण्ष्टे वीथौ १३,
 ३८: ११; माथौ ५, २, ६, ७;
 वैताथौ १२, ३; २१, १४; अथय
 ६, २.
 वृष्टि-काम->धे(म-इ)
 अय०-अथया वृष्टे ८, ५.
 वृष्टि-काम०-म: शाथौ १४,
 ३५, १; काथौ; -मथय काथौ
 ५, १, ६; आपथौ.
 वृष्टि-मृष्ट-हम् माथौ ३, २, ५,
 २१.
 वृष्टि-ज-जम् निम् ७, ७:
 २१.
 वृष्टि-दाविन्-वीनि अय ६५,

३, ७.
 वृष्टि-यो-वावा माथौ १,
 ९, १; वाथौ १, १४, ५; आपथौ
 ४, ६, १; माथौ ४, ८, १; द्विथौ
 ६, २, ९.
 वृष्टि-मन्-मन्मत् ऋषा ८,
 ३०; -मान् माथि १०, १०;
 गथि २, ७४; ९०.
 वृष्टि-मती-नी वीथौ १२,
 १०: २८.
 वृष्टि-पाचिन्-चिन्मा या २,
 १२.
 वृष्टि-वनि-नवेक आपथौ
 १५, १०, २; वीथौ ९, ९: २७;
 माथौ ११, ९, १८; -निम्
 आथौ ५, १, १५; शाथौ ६, ७,
 १०; वीथौ ७, ५: ८; या २,
 १२.
 वृष्टि-सिरताव०-त्वम् निम् ७,
 ७: २१.
 वृष्टि-सनि-नव: वाथौ २,
 २, १, २५; -ण्नि आपथौ ६,
 ११, ५; वीथौ; -नी: आपथौ
 १७, ५, ५; वीथौ; ण्माथि २५;
 २९; वैषा ६, १२.
 वृष्टि-हव०->वादिहव्य-
 -व्य: ऋष २, १०, ११५; साज
 १, ६४.
 वृष्टव(षि-म)वेत्-म: वाज
 ११: ३.
 वृष्टव(षि-म)व०-धम् इदे ८,
 १.

वृष्टव(षि-म)कात्-
 ५८, ३, ६.
 वृष्टव-पा ३, १, १२०.
 वृष्टव-वृष्ट(वधा.)द.
 वृष्टव०-पाग ४, १, १५४.
 वाप्यादिमि-पा ४, १, १५४; वावा
 ४, १, १५५; आपय १, १९, ५;
 २८, २; द्विष १, ५, १०७; ७,
 ३८; या २, २.
 वाप्यादिणीय०-वन् आपय १,
 १९, ८; द्विष १, ५, ११०.
 वृष्टव-वृष्ट(वधा.)द.
 वृष्टवणा०-पाग ४, १, १०५; २,
 १११; -म: ऋष २, १, १७;
 साज १, ५२४; -जे वागवा ४,
 १, ६९.
 वापंगम-पा ४, १, १११.
 वापंगमि०-मि: वीथीष ४१:
 १३.
 वापंगमव-पा ४, १, १०५;
 -व्य: हाथौ २, २, ३३; लाथौ
 १०, ९, १०; निम् २, ८: १३;
 ९: १३; ३, १३: २६, ४;
 -वयम् वेष्ट १, १४: १०.
 वृष्ट-ता-प्रम्, वृष्टव०, वृष्टव०,
 वृष्टव०-वृष्टम-वृष्ट(वधा.)द.
 वृष्टव०-पाठ ४, १००.
 वृष्टव०-पाठ १, १०६; पाग ५, १,
 ११०; वागवा ५, ३, ६६; -ल:
 वीथौ १६, २२, १६; हाथौ ११,
 ३, १; लाथौ ४, ३, २; या ३, १६;
 -ला: वा ३, १६; -लात् वीथौ

अ) अर्थः?। वृष. = श्लेषधि, उप. <वृष् (दादे) इति ०?। (वैद. माध्यम्य पुर. = वृष्ट- इति सरता उप. <वृष्त्त निवासे इति वा मन्थने इति वा (उ. C. टि.)। b) = कर्णः। c) तु. पावि.। d) = विधि-। <वृष्त्त (सु. सरथ. टि. विविधुय)। e) वागे. वेष्ट वृष्टिवावाजम् टि. द.। f) वृष्टि इति पाठः। सवि. गोष्यः (उ. आपथौ १७, १३, २)। g) मलो. वत्.। h) धत्.। i) वेष्ट इ. द.। j) = शब्द-विशेष-। k) अय. मा ३८, ६ मास १४, २, १, २१ रीमा ४, ८, ५, ७, ७, ७। मे ४, ५, ७ तु 'सुतये इति वागे.। l) म्यप.। m) हस्तेर्दानीम् ए: म.। n) अथवापे इन् प्र. उममपरः इति व।

९, ५: ३४; १३: १०; -लाव
 कौश्री २, १६: ५१; १७: ७;
 ४४; कौश्र ९२, १९; -ले आण
 ४, २, १९; २१; -लै: गोण ३;
 ५, ३४; जैण २, १९: २५; विष
 ६३, ४.

वृषलो- पाण ४, १, ९६;
 -ली विष २४, ४१; -लीम्
 अण २, ४९, २; अण १३, २;
 -लव: काशी १४, २, २०;
 -ल्याम् शेष ४०१.

वार्पलि- वा ४, १,
 ९६.

वृषली-गमन- नम् अण
 ९: ३, ५.

वृषली-पति- ति: शंभ
 ४१४; आपण १, १८, २३; बौध
 २, ३, ५२; हिष २, ५, १०२; २,
 ५, ४९; -धीम् आणित ३, ११,
 १: १०; -ते: वाच १४, ११.

वृषली-सेव- नात् विष
 ५३, ९.

वार्पल- वा ५, १, १३०.

वृषल-व्य वा ३, १६.

वृषला(ल-म)ण-वर्जित्- जी वाच
 १०, ३१; बौध २, २, १.

वृषली-भू> वृषली-भूत- त:
 जैण १, १२: ३१.

वृष-शील-, √वृषस्य √इप्(बधा.)
 द.

वृषाकपि- वि: अण ४८, १४२१;
 अण २, १०, ८९; वृदे २, १०;
 ६७; ६८; अण २०, १२६; निष
 ५, ६; या १२, २७१; १३, ४^३.

अण ५, १, ३१; -पिवा वाशी ८,
 ४, २; -पिम् आशी ८, ३, ४××;
 शाशी १२, ६, १३××; १३, २^१;
 वीशी; -कौंवे या १२, २८; १३,
 ३; -पो: या ११, ३९१; १२, ८;
 -पो शाशी १२, २४, ३; वीष १,
 ६, ९; अण ८, २६.

वृषाकपायी- पा ४, १, ३७;
 -०पि या १२, ९१; -वी अण
 ४८, १४४१; वृदे २, ८; ८०;
 ७, १२०; १२१; निष ५, ६१;
 या १२, ८; -वीम् वृदे २, १०.
 वार्पाकप- नम् वृदे ७; १४१;
 -ये वृदे २, ६९.

वृषाकपि-व्य वीताशी ३२, ३१.

विपृषाणु- अण् शाशी १२, १६,
 १.

वृषा-गिर- प्रभ. √इप्(बधा.) द.

वृषाणक- न् अण २, १०,
 १३६.

वृषातकि- के: वाच ४२: ८.

वृषावर्म- प्रभ. √इप्(बधा.) द.

वृषी- वीम् गोण ४, २, २४.

वृष्ट- १, वृष्टि- √इप्(बधा.) द.

वृष्टि- (> वार्ध- पा.) पाण ४, २,
 ८०.

वृष्टिण- पाठ ४, ४९; -णि: आशी
 ५, ३, ३; शाशी; बौध ८:
 ४१; माणि ६४१; -णिवा
 अण ५, ६; -णिम् आपशी
 १२, १८, १४; १९, २, १; काशीले;
 -न्ते: वाशी ५, ४, १५; आपशी
 १६, २७, ११××.

वृष्टि-वरत्- -स्त: हिशी २२, ४.

१७; -स्तम् हिशी ११, २, १.
 वृष्टिण- -नम् वाशी ४, ६८:
 ५; माणि ६४१.

वृष्टिण(व>)वा-वर- -वा:
 वीशी ८, १४: ३७; हिशी ९, ४,
 ३१; तेषा ३, ५.

वृष्टि-वासत्- -स्तम् वीशी १८,
 १६: ३; १९: ३.

वृष्टिण- -व्यम् आपशी १२,
 १९, ५; जैशी १४: २४; कौष
 ६८, १०; अण ३, ४, १;
 -ण्यणि कौम् ६८, १०.

वृष्टिण-वार्त्- -वत्: जैशी
 १२: १८; या १, १११; -वत्
 अण ९, १७.

वृष्टिण-वती- -०ति वी
 ४०, १४.

वृष्टिण- > वार्ध- -वा: शोशी
 ४८: ११.

वृष्टिण- (> वार्ध- पा.) पाण ४,
 १, ११२.

वृष्टिण- १, वृष्टि- द.
 वृष्टिणवृष्टि- (> वार्ध-
 वृष्टिण-)

१-वृष्टि- √इप्(बधा.) द.
 वृष्टि- (> वृष्टि-)

वृष्टि(बधा.)=√इप्(बधा.)वापा.वृष्टि.
 उरणने, वृष्टि आण १, १२,
 २४; हिष १, ८, ६५; या
 ५, ४^३.

वृष्ट- (> वार्ध- पा.) पाण ५, १,
 १२३.

वृष्ट ता-, वत्-, वृष्टिम्- वा
 ५, १, १२३.

a) वृष १ द. । b) मृहप्रसारेण निर्देहः । c) द्विपदः शोषः वृष १, २४६५ ० द. । d) मय. ।
 e) पाठः यनि. शोषः । f) = १ आणम. । g) वृष १ निर्दिष्टयोः समासेषः द. । h) मलो. वय. ।
 i) वय. अ. १, ११, १६ वृष्टिणम् इति पाठे. । j) मलो. वय. समासान्तत् इप् प्र. । k) = वंत्-विणो- ।
 l) वृ २२७० वा द. । m) वृ १६२१ द. । n) पा. दिशानां वृष्टिः । o) वृष्टि इति ल. ।

√वे पापा. भ्वा. उभ. तन्तुमंतादे,
 वृषयत् अपथी १९, १७, १३;
 वीथी ३, १० : १३; हिथी २२,
 १, २४; अप्रथ १, ३; वृषयत्
 आपथी १४, १२, ४; हिथी
 १०, ६, ९; आपमं; वाप ५, ११.
 क्युः क्युः १४, ५०.
 क्युः-ते काठथी ११८; काप
 ४५, ६; -ताम् काथी ७, ९, २४.
 वय(व>)न्ती-न्ती या ४, ११.
 वेषन्- पाठ ४, १५०; पाग ५,
 २, १००.
 वेम-न- पा ५, २, १००.

√वेल्
 १-२वेग- १वेगवेत् √विन् द.
 वेच्छद्दि कथीत् ३१ : १३.
 वेजन- √विन् द.
 वेद् काथी १८, ३, ५५.
 वेद्- (> √वेद्य पा.) पाग ३, १,
 २०.
 वेट- (> वेटन्- पा.) पाग ४, २,
 ६६.
 वेट- (> वेटन्- पा.) पाग ६, ३,
 ११९.
 वेटा- (> वेटान् पा.) पाग ३, ३,
 २७.
 वेटा- (> वेटान्- पा.)
 √वेणु पापा. भ्वा. उभ. गतिज्ञान-
 चिन्तामिशामनवादिप्रमहणेषु.
 वेणि,णी- पाठ ४, ४८; -णिः वाप
 १६, १६०; -निम् काथी ७, ३,
 २२०; -नी वीथी ६, १ : ३;

वैथी १२; ८ : १२; हिथी ७, १,
 ४९.
 वेण्या(वी-आ)थ- -याः अप ३२,
 ९, १.
 वेणु- पाठ ३, ३६; पा ६, १, २१५;
 पाग ४, २, ८०; ६६; ९१;
 ३, १३४; ४, १०३; ५, १,
 १२२; ६, ४, १५३; पावा ६, १,
 २१५; -णुः आप ३, ८, २०१;
 तैत्रा १३, ९१; मत्ता ४, ७; ६;
 -णुना वापथी १५, २, ११;
 १६, १७, ८; वीथी १०, १९ : ७;
 माथी; -णुम् काथी १८, २, १३;
 माथी ६, १, ५, ३०; कौथ २, ९,
 ९; आपथः -णोः अप २३, १,
 ५; आपथ ८, १२; ९, १; वीथु
 ८ : ११; हिथु ३, १७; नाथि १,
 ५, १; -णो कथी १८, २, १०.
 वेषण- पा ४, ३, १३४; -वः
 काथी ४, ६, १८; अप १८, ३, ५;
 -वम् भाथी १, २२, १; भाप
 ३, ८, २०; वाप ३, १, ११; पाप
 २, ६, ३१; वेष; वेष १, ३,
 २९, वेष २, ३, २६; -वाः
 आपथी १५, ५, १३१; भाथी
 ११, ५, १७१; माथी; -वाताम्
 वीथ १, ५, ३०; -वानि आपथी
 १५, ५, ११; वीथी १३, ७ :
 १६; हिथी २४, २, ५; -वेन
 कौथ ३२, ८.
 वैणवी-न्ती वाथी १६,
 २, ५; वापथी ४, १०४ : १,

लाथी ८, २; ६; कापु ७, १३;
 -वीम् आपथी १६, १, ७; १७,
 २६, १४; वीथी ९, १ : १; माथी
 १२, १, ३; माथी; -व्या माथी
 ४, १, ११.
 वेषण-दण्ड- -ण्डम् वेष ३,
 १, १.
 वेषण-दण्ड-घाति- -री
 काप ३, ११.
 वेषण-दण्ड- -ण्डानि
 वीथी ९, ५ : ५.
 वेषण(व-अ)न्त- -न्तान्
 अपथि २, ७, ११ : ९.
 वीथु- पा ४, २, १०३.
 वेणिम्- पा ५, १, १२२.
 वेणु- पा ४, २, ८०; पावाग ४,
 २, १३८; -काः वेष ३, १५, १.
 वेणुकीय- पावा ४, २, १३८.
 वेणु-काण्ड- -ण्डम् वीथी ९, १ :
 ६; १८; -ण्डेन आपथी २३,
 १८, ९; वीथी ९, ३ : १७.
 वेणु-का- -नागाम् वापथी ३, ७६ :
 १५.
 वेणुकीय- पा ४, २, ११.
 वेषु- पा ६, ४, १५३.
 वेणु-दण्ड- > ण्डा(ण्ड-अ)-तत्
 (:) वैथी १९, ६ : ३३.
 वेणु-दण्डो(ण्ड-उ)पवीत-
 क्कण्डण्डु-वन्दन्वा(ल-आ)दि-
 -दीन् वेष २, १, ६.
 वेणु-दण्ड- -ण्डेन विप ७२, ८२.
 वेणु-पर्वन्- -र्वन् माथी १५, ३, ५;

a) पा ५, २० पा २, ४, २१; ६, १, १५; ३०-४१; ७, ३, ३७ परास्य द.। b) = सपा. श्र १०, ५३, ६ प्रथ. सेमा ३, ३८। कठ ३३, ११, १२ त् वयति इति पाठे.। c) 'वा' इति पाठः! यनि. सोषः (ग्र. आभर्म. प्रथ)। d) वयन-नाघनाड्यन्तम्-। e) १ २२७५ ० द.। f) वेप १ द.। g) पाभे. वेप २(परि.) मुद् तं ४, ६, १, ४ डि. द.। h) = वीथु-दण्ड-। i) वृ. पागम.। j) वेटा- इति पाठः। k) = वरत-विशेषः। l) वेटाण्ड- इति वेचिद.। m) = वेणु-संपत्तिः। n) = [वेणुवाकारा-] वेणुका-। o) कर्मः?। p) = वरत-। q) 'वद' इति वेचि.। r) 'ण्ड' इति पाठः! यनि. सोषः। s) 'वेणु' इति C.। t) विप.। मस.। u) = यनि-विशेषः। v) उप. = सप-।

माधौ ११, २, २७; वैश्वौ १३,
३ : १५; हिथौ १६, ६, १५; २४,
१, १६; -वैश्वाम् वैश्वौ १८, १ :
७१; -वैश्विः आपधौ १५, ३,
१६; भाधौ ११, ३, ९.
वेणु-प्रियङ्गु-नीवार- -रैः वैश्वौ ८,
२ : ७.
वेणु-मत्- पा ४, २, ८६.
वेणु-यव^१- -वाः बोधौ २४, ५ : १८;
-वाम् आपधौ ६, ३१, ९;
-वानाम् आपधौ ६, ३१, ८;
माधौ १, ६, ४, २६; हिथौ ३,
८, ८४^२; माध २, ३, १२;
-वेणु आपधौ ६, ३१, ९; -वैः
आपधौ ६, ३१, १४^३.
वैणुव(व>)वी^४- -वी माधौ ३,
१२, २.
वेणु-गद्वि- -प्याम् काधौ ५, १०,
१८.
वेणु-रिक्त- -क्तवोः पावा ६, १, २०४.
वेणु-वीणा-वादिन्- -द्वौ वैश्व ३,
१५, ३.
वेणु-वीणा-स्वर- -राणाम् नाशि १,
३, १.
वेणु-वेत्र-करीषक- -केणु वैश्वौ ११,
९ : ३.
वेणु-श्यामाक-नीवार- -राः आपधौ
१६, १९, १३.
वेणुश्यामाकनीवार(र-आ)दि-
-दिभिः आमिष्ट २, ७, १० : ६.
वेणु-सद्विष- -सम् अशौ १३, ३.
वेणव(णु व)ङ्गस- -रैः आपधौ
१६, ४, १; माधौ ६, १, २, ३;
वाधौ २, १, १, ३४; वैश्वौ १८,

१ : ६०; हिथौ ११, १, ४४.
रवेणु^५- -णून् अप १, ६, १०; -णूनाम्
आधौ १२, १४, ६.
रवैणव- -०व आधौ १२, १४, ६.
श्वेणुक- श्वेणु-द्र.
रवेणुक^६- -कः सु २३, ५.
वेत्तन^७- पाठ ३, १५०; पाग ४, ४, १२;
-नम् विष ८६, १८.
वैतनिक- पा ४, ४, १२.
वेत्तस^८- पाठ ३, ११८; पाग ४, १,
४१; २, ९१; ६, ४, १५३; -सः
आपधौ १७, १८, ११; -सम्
वैताधौ २९, १३; अप ३७, ८,
२; अत्र १०, १०; १८, ३.
वेत्तसी- पा ४, १, ४१.
वैत्तस^९- -सा वाधौ ३, ७६ :
३५; -सम् काधौ १३, २, २७;
आपधौ २०, २, २; बोधौ १२,
८ : १; १३, ३७; ४; १५, १४,
९; माधौ; -सानाम् अप ६५,
३, ८; -से काधौ १९, २, १२;
आपधौ १८, १३, २१; २०, २१,
१; बोधौ; -सेव आपधौ २०,
२१, ६; हिथौ १४, ४, ५१.
वैत्तसी- -सीनाम् अप
३६, २२, १; ६५, ३, ३; -स्वः
अप ६५, २, २.
वैत्तस-शामीमय- -शौ आमिष्ट
३, ८, ३ : १२; वीषि १, १५;
८४.
वैत्तस-शाला^{१०}- -रवा
आमिष्ट ३, ६, ३ : ९; -राम्
आमिष्ट ३, ६, ३ : ५.
वैत्तस-सामिप्^{११}- -मिधाम्

आमिष्ट २, ५, १० : ४.
वेत्तस-कट- -रैग काधौ २०, २, २.
वेत्तस-काण्ड- -न्देन आपधौ २१,
१८, ९.
वेत्तस-कोव- पा ४, २, ९१.
वैत्तसक- पा ६, ४, १५३.
वेत्तस-माला-> लित्- -लिवः
हिनि ११ : ३.
वेत्तस-माला- -खवा आपधौ २०,
१३, ११; माधौ ६, २, ४, ११
वाधौ ३, ४, ३, २४; हिथौ,
-खामिः कौषि ४, १, ९; -खाम्
आपधौ १७, १२, ७; बोधौ १०,
४७ : १६; ४८ : ३३; माधौ २,
३, ३, १७; वैश्वौ १९, ६ : ५३;
हिथौ १२, ४, १; वीषि १, ११ :
५; -खापाम् आपधौ २०, १७,
८; १८, १५; -खासु वाधौ २०,
८, २.
वेत्तस्वन्- पा ४, २, ८७.
वेत्तस्वि(व>)नी^{१२}- -नीः माध २,
१३ : १४; हिथ २, १२, १०.
वेत्ताल- पाठमो २, १, १०५.
वेत्ताली-> ली^{१३} पा. पाग १,
४, ६१.
वेत्तवै^{१४} ✓विद् (लामे) द.
श्वेन्तु- ✓विद् (शाने) द.
रवेन्तु- ✓विद् (लामे) द.
विस्तोदि वाज ४१ : ३६.
वेत्र^{१५}- पाठ ४, १६७; पाग ४, २, ९०;
९१; ६, ४, १५३; -त्रेण कौषि
४०, १०.
वेत्रक- (> वैत्रकीय- वा.) वाज
४, २, १३८.

o) पस. उप. = श्वक-। b) 'शुगनाम् इति पाठः? वनि. शोधः (द्र. भाष्यम्)। c) = भाषुति-
विशेष-। द्र. MSW.। तस्येदमित्यर्थे श्व प्र.। d) व्यप.। e) = अशुत-विशेष-। f) = कृति-। श्यु. १।
< ✓वी इति अभा.। g) वेप १ द.। h) विप.। विहारप्रे प्र.। i) कण. पृ. पुंश्रुकाः। j) विप.
(नदी)। मत्स्ये द्विषिः प्र. असे. (पा ५, २, १२२)। k) = वेत्तस-। श्यु. १।

वेत्रकीय- पा ४, २, ११.
 वैत्रक- पा ६, ४, १५३.
 वेत्र-व(ह)ती^०-स्याम् विध ८५,
 ४४.
 वेत्र-वीत^०-तम् द्विषी २३, ४,
 १२०.
 वेत्र-वेष्टित-तम् आपथौ १८, १०,
 २७०.
 वेथीय- वा ४, २, १०.
 वेत्स्यत्- √विद् (लोभे) द्र.
 र-खेद- प्रत्य. √विद् (शाने) द्र.
 खेद^०- पाग ५, १, २०; ६, १, १५६;
 -क०द शाश्री १, १५, १२१;
 वीथी ३, ३०: १; भाथी १,
 ६, ४; द्विषी १, २, ७२; -दा
 ऋषाथी १, १०, ३^१; ११, १^२;
 शाथी १, १५, १२^१; १३;
 काथी; -द्वम् भाथी १, १०,
 २; ११, १; ४, १२, ६; शाथी;
 श्रामिष्ठ ३, ४, २: १२^१; वीथि ३,
 १, १२^१; द्विषि ६: ७^१; -द्वस्य
 वीथी २०, ३: १४; -दात्
 आपथी ३, १४, ७; भाथी ३, १, २;
 वैथी; -दाभ्याम् वीथी ५, ७:
 २; ९, ५: २५; १५: १; वैथी
 ८, ११: ९; -दे शाथी १,
 १५, ११; ८, १२, ६; आपथी
 १३, १८, ४; वीथी; -क्षेत् काथी
 १, १०, ६××; आपथी १, २३,
 ६××; २, १२, ७^१; -दी
 आपथी ८, ५, ४; १५, ५, १८;

वीथी ९, ५: ८; भाथी ११, ५,
 २१; वाधूथी.
 खेद-कर्मन्- भंगः द्विषी १, ४, १९.
 वेद-सूच^०- चंम् वैष्ट ५, ४: ३५^१.
 वेद-मृण- गम् काथी ३, ७, ११;
 -गानि भाथी १, ११, ४; ९;
 वैथी ७, १४: १; द्विषी ६, ४,
 ३०; -सैः भाथी १, ११, ५.
 वेद-देवताक^१- कम् श्वभ ७, २८.
 वेद-निधाना(न-आ)दि- दि वैथी
 १०, १०: १५.
 वेद-परिवासन- नम् वीथी १, ४:
 ११; -नानि आपथी १, ६, ६;
 वीथी १, १२: २; द्विषी १, २,
 ७६; -नेषु वीथी २०, १०: १.
 वेद-प्रव^१- न्वाम् वाथी १, २, ४,
 ४; -वैः वाथी १, ३, २, १२.
 वेद-प्रलब्^१- न्वागाम् माथी ४,
 २, ७; -वान् माथी १, २, ५,
 २; ४, २, ६; १७.
 वेद-प्रान्त- न्नीः द्विषी १, ७, १.
 वेद-प्रासन^१- नम् आपथी १२,
 २५, १३.
 खेद-मूल^१- लानि वाथी १, ३, १,
 ३६.
 वेद-मोक्त- न्ते शाथी १, १५, ११.
 वेद-शिरस- रा वाथी १, २, २, १;
 -रसा भाथी १, ११, २; गाथी
 १, २, ६, २१.
 वेद-शेष- न्वम् शाथी १, १५, १६.
 वेद-समवधानी^१- नी वैथी १०,

७: १.
 वेद-स्तरण- गम् भाथी ३, ६, २३;
 भापथी ४, १६, ९.
 वेदा(द-अ)म- भागि आपथी २,
 ४, २; भाथी १, ६, ९; वैथी ३,
 ५: ६; ५, २: १४; -मे वाथी
 १, २, २, २; -मैः काथी २, ६,
 ३९; भाथी २, ४, ३; वैथी ५,
 २: ११.
 वेदा(द-आ)दान-प्रमृति- ति माथी
 १, ७, ३, १३; २, २, १, ५२××.
 वेदा(द-अ)भिगमशैव- नम् आपथी
 १२, २५, १३.
 वेदाभिगमशैव(व-आ)दि- दि
 वैथी १५, ३३: ४.
 √वेदि^१, वेदपति वीथि १, ४: १.
 वेदथिया वीथि १, १५: ६.
 खेदो(द-उ)प्याम^०- न्वम् वाथी
 १, ३, ७, १.
 खेदो(द-उ)प्याम, मा^०- न्माः माथी
 १, २, १, ११; २, ४^०; १, १८; ३, १,
 ५^१; ५, १; ८, ५, १०; -मा माथी
 १, २, ५, १२; -मेव कठारौ
 ६३.
 खेद- पा ५, १, २.
 खेद-कर्मन्- प्रत्य. √विद्(शाने) द्र.
 खेद-कर्मन्- प्रत्य. खेद- द्र.
 वेददर्श^१-
 वेदस- √विद्(शाने) द्र.
 वेदना^१- पावा ३, ३, १०७; -ञ्च श्व
 २२, ५, २.

a) = नदी-विशेष- । b) उप. < √स्वे (संवरणे) । c) परस्परं पामे । d) = कुशगुह- । पै११ द. ।
 e) श्वः १ । f) उप. वेष्ट ५, ४: ३५ वेदशुचंम् इति पामे । g) उप. वेदेषोपप्यामोः नः इत्यस्य प्यामे
 भाथी १, ३, १, ५ वेदेषोप्यामः इति पामे । h) पत्त. । *दं कु* इति पाठः नं यानि, सोपः (प्र. ८.) । i) पत्त. ।
 j) उप. = राष्ट- । k) उप. < प्रा (प्र/अ)म् [क्षेपोः] । l) पत्त. । m) द्रम. उप. नाथ. (यतिव-नाथ-
 विशेषः) । n) पा. संमार्थेण श्रुति । o) = दर्शनय-उपररक- । पत्त. । p) विप. । यथा. उप. = वृत्तन- (वेत्तु-
 म्प. श्व. नाथ. । उपररक-विशेष- । q) पृ. = खेद- इति च । r) वेष्ट. श्वः ११: ११. इति. इव संमार्थयत् ।
 s) पृ १२६८ h द. । j) भाप. । < √विद् [वेत्ताप्याम्] ।

विदिम्^१ आण १, १५, १; कौर १, १६, ७; शाण १, २४, ४.
 विदमसुष्याद्^२ आश्री १०, १४, २.
 वेदय-^३ विदु(शाने) द.
 वेदयित्वा रेवेद-द.
 वेदस्^४-दः वीश्री २८, १० : ७;
 आषम २, १४, ३; आण १, १५, ३; आश्रिण २, १, ३ : ६; माण १, ७८, ६१; १५५; -दसे
 हिथी २, ५, ३१; ४, ४, ५; २१, २, ७, १; -दसिष्वापश्री ६, २३, १; भाण २, १० : ११.
 वेदान्त-प्रभु. ^५विदु(शाने) द.
 वेदाय भाण २, २२ : १२६.
 वेदि रेवेद-द.
 रेवेदि^६-
 रेवेदि, दी^७- पाठ १४, ११९; -दिः
 आश्री ३, १४, १०; ८, १३, १;
 ९, ७, १३; १०, १, ३; आश्री;
 काश्री २०, ७, १५; वाश्री ३,
 ४, ४, १; आश्री ९, १०, १४;
 वेताश्री ३७, १; ब्राह्म ६, १३;
 ७, २; १७; आण ५, १३;
 १४; ६, ४; १२; वीश्री ३;
 २७; १६; १३; हिथी २, २४;
 २५; ३२; -दिम् आश्री
 २, ३, १३; ४, १०, ६; वाश्री ३,
 १६, १७; ८, १, १; आश्री;
 आषम ३, १३, ५; वीश्री
 १५, २९; ११; माश्री २, ८,
 ८; ३, १२, ३; माश्री १,

३, ५, २६; हिथी २, ६,
 ३०; -दी काश्री ५, ३, ९;
 १९, २, १; आषम ८, ५, ४;
 १०; ११; वीश्री; -दीः वैश्र
 १, ९ : १६; -देः वाश्री १, ३,
 २२; २, १७, २; ८; ३, १, ८;
 शाश्री; -दी वाश्री ३, १४, १५;
 ४, ८, ३; -वा वीश्री १९, ७;
 ४६; -वाः आश्री १०, ८, २;
 -आषम २, ११, ९; १५, १; ८,
 १३, ८; १४, २५; माश्री;
 -आम् आश्री ३, १, २०; ५,
 १२, ८; ११, ४; काश्री; -दी
 -आषम २, १२, २०; वीश्री
 १, ११ : १; १२ : ४२; ४४;
 १३ : १; माश्री.
 वेदि-करण-^८ आम् काश्री २, ६,
 २२; काश्री ३; वाश्र १ : ९;
 -गानि^९ आषम १२, १९, ६; वीश्री
 १५, २३ : १; हिथी ८, ५, २३.
 वेदिकरण-परिस्तरण-यागिप्रका-
 लना(न-आ)स्तरण-^{१०} गानि
 वीश्री १४, १४ : ३.
 वेदि-कर्म-^{११} -मे माश्री २, २, ५;
 मीश्र ६, १, ८.
 वेदिकर्म-प्रभुति-^{१२} -ति वाश्री
 १४, ४, १८.
 वेदि-कार^{१३} -रा वीश्री १०, २३ :
 १३.
 वेदि-काल-^{१४} -वा माश्री ५, २, ४,
 ७; १२, २; -ले वाषम २०,

९, १; माश्री ५, २, ४, ८; १५, १.
 वेदि-गत-^{१५} -तः आष २४, ५, ३.
 वेदि-नृण-^{१६} -गे काश्री ६, ५, ९, ९,
 ६, ३०.
 वेदि-नृतीय-^{१७} -ये आषम ११, १,
 १४; ११, ५; काश्री २, २५ : १;
 वीश्री १९, १ : ३; वाश्री १, ३,
 १, ३२; २, ५; हिथी २३, ३,
 ५; वीश्र ३ : ३०; हिथी २, १९.
 वेदि-व्य-^{१८} -व्य वाषम ४, ११ :
 २.
 वेदि-देश-^{१९} -शम् वाषम ६, ३, ५;
 वीश्री ४, ११ : ३; हिथी ६, ३,
 १; -ले वाश्री १, ३, ३; वाश्री
 १, ३, १; माश्री १, ७, ६, ४.
 वेदि-वर्णव्य-^{२०} -व्य माश्री ६, १,
 ६, २३.
 वेदि-पुरीष-^{२१} -वा माश्री १, ७, ३,
 ३७; आण १, ५, ५.
 वेदि-शोष-^{२२} -शम् वाषम १७, १६,
 १; वीश्री १९, ६ : १५.
 वेदि-शोषण-^{२३} -मे मीश्र ११, ४,
 ४७.
 वेदि-वर्हिस्-^{२४} -र्हिः वाश्री ३, ३, ५.
 वेदि-मर-^{२५} -व्यम् वाश्री २२, ९,
 १५; -वा माश्री १२, ११ :
 १२; वाश्री १३, १, ५; -ले
 वीश्री २, ६ : ३; ९, ४ : ७.
 वेदि-मूल-^{२६} -व्यम् वेणु १, ११ : ११.
 वेदि-रूप-^{२७} -व्यम् माश्री ५, २, ४, ८,
 वेदि-शोष-^{२८} -व्यम् भाण १, ११ : ६.

a) षा, हृदम् इति द्विपदः पाठः द. (द्व. हृदमाः; वेद. P. च. प्रभु. = विप- इति, old. = शान- इति)।
 b) पाठः देवमसुष्यादि- > -दि इति शेषः (दु. ०.)। c) वेप १ द.। d) वेदु. [पक्षे] Old. यति. वेद-
 [अर्थः ३] इति। e) कर्म-नामन्-। f) यक्ष-नामन्-। g) पाठः वेदाय (= भेदनाय) इति शेषः। तद-
 द्विपदो > -नाम् (१३). i) रूपान् > -नाम्, शिष्यान् > -नाम्, सितोयपाद > -नाम्, इदित् >
 इतिनाम् इत्येते पाणि शेषाः द.। h) वृ १०८२ hi द.। i) = सवा. त १, १६४, २५ प्रभु. माण १३, ५, २,
 २१। ii) ७, ४, १८, २ प्रभु. वृ वेदिम् इति पाठे.। j) सवा. मी ३, ४, १ प्रभु. वेदिः इति पाठे.। k) पाठे. वेप १
 वेदिम् वाठ ३१, १४ टि. द.। l) नाप. (तदर्थोत्तरण- [एषमादि-])। उप. करणे प्र.। m) नाप.। n) दत्.।

१०; माण्ड १, ७, ९; वाण्ड १०, ९.
 वेदि-वर्धन- -नम् काश्री ८, ८, ११;
 काण्ड ६, ८.
 वेदि-विज्ञान- -नम् वीथी ३७, २.
 वेदि-विमान- -नम् वीथी २६,
 २३: ४.
 वेदि-विहरण- -गानि आपण्ड ५, ७;
 दिव्य २, १६.
 वेदि-शेष- -यम् काठश्री १०, २.
 वेदि-श्रोणिणी- -गिम् काश्री १३,
 ३, १२; माश्री २, ४, ५, ६; ५,
 २, ८, ५; १६; वाश्री १, ७,
 ४, ५; ३, २, ५, १६; -नीम्
 आश्री ५, ११, १; द्विशी २१,
 १, ४; -जे: काश्री ५, ४, ९;
 कौण्ड १३७, १६; -जी काश्री
 २, ७, १९; ८, १, २० x x; माश्री;
 -ण्या काश्री १, २, ३; -ग्याम्
 काश्री ६, १०, २१; काश्री.
 णवेदि-पद- -यम् आपश्री ५, १४,
 ५, वीथी २, १७: २८; द्विशी ३, ४,
 २८; या १४, ३१; -पद^b काश्री
 २, ६, ९; काश्री ४, ४, १; आपश्री
 १, ७, १३; द्विशी २, ७, १८;
 -पदे काश्री ४, १३, ७; काश्री.
 वेदि-सौव्य- -गात् मीम् ११, २,
 ४५.
 वेदि-सम्- -सद: वाश्री ३, १, ४,
 १०.
 वेदि-संधि- -धी वीथी २१, २: १८;
 माश्री २, २, २, १८.
 वेदि-समीप- -वे वाश्री २५, ११,
 १६.
 वेदि-संगत- -नात् आपश्री १४,

५, १०.
 वेदि-संमित, ता- -नम् वीथी १८,
 २०: ४; -ताम् द्विशी २, ८, १२;
 तैप्रा ६, १२१.
 वेदि-सहित- -व: वाश्री १२, १, ६.
 वेदि-स्वरूप- -ग्य: विष १, ७.
 वेदि-स्वरण- -गम् द्विशी ७, ७, ३६;
 -जे वीथी २, ५: ८.
 वेदिस्वरण-प्रभृति- -तीनि द्विशी
 १२, ६, २४.
 वेदि-सृष्ट- -सृष्ट् काश्री १, ८, २८.
 वेदि-सक्ति- -क्तिषु वाश्री ३, १, १,
 ३१; २, ५, २७; -समात् काश्री
 २५, १३, ३०.
 वेदि(दि-उ)ष्टका-प्रमाण- -गम्
 काश्री १६, ८, २१; काण्ड ६, १.
 वेदि(दि-अ)स- -सम् शाश्री १७,
 १५, ३; वाश्री १, ३, ५, १; द्विशी;
 -सयो: माश्री १, ३, ४, २८ x x;
 वाश्री १, ३, ६, २३; -सव्य
 आपश्री ७, ४, १; माश्री ७, १, २;
 १२, ५, ४; माश्री १, २, १, ३;
 -से आपश्री १२, १७, ५; १३,
 १९, ६; वाश्री ३, २, ७, ८; वैथी
 १५, १९: ५; -सो आपश्री २, ३,
 १; वीथी २४, २४: ६; माश्री
 २, २, ११; वैथी ४, १२: ८;
 द्विशी १, ६, ९०; आपण्ड ४, ६;
 दिव्य २, ६.
 वेदिशक्ति^d वैताश्री २८, २३.
 वेदि(दि-अ)मि-मान- -नम् काश्री
 १६, ७, २८.
 वेदि(दि-अ)म- -जे वीथी १०, ३: ३.
 वेदि(दि-अ)मस्ताव वैथी, १०: ९;

१२: २.
 वेदि(दि-अ)न- -नम् वीथी ३, २७:
 ८; २१, ९: १६; द्विशी; -न्तस्य
 वाश्री १, ६, २, १५; -न्तात्
 आपश्री ११, ९, ५; काठश्री १००;
 माश्री २, २, ३, १३; वीथीका
 १३४^g; -न्तात् आपश्री २, ११,
 १०; भाश्री २, ११, १२; वाश्री;
 -न्ते काश्री ८, ६, २०; आपश्री;
 वीथी १६, २१: ६^h; -न्तेव
 काठश्री ३४; ५१; ११०; वीथी
 ६, २२: २२ x x.
 वेद्यन्त-संमि(त>)वा- -ना
 काश्री १, ४, २.
 वेदि(दि-अ)न्त- -रे काश्री ५, ४,
 १०.
 वेद्य(दि-अ)र्ध- -धम् वीथी १४, ५:
 ४; वैथ २, १७: ५.
 वेद्य(दि-अ)कृति- -तिम् काण्ड
 ५२, ५; ५७, २; माण्ड १, ६, २;
 २, ६, ४.
 वेद्य(दि-अ)क्रमण- -येन वीथी
 १३: १; १८: १.
 वेद्यक्रमण-मन्त्र-सम् (:)
 जैथीका १३१.
 वेद्य(दि-अ)स्वरणा(ण-अ)दि-
 -दि आपश्री १७, २०, १८^g.
 वेद्यु(दि-उ)धर- -ती वीथी १, १२:
 ११; २, ६: ५; १२; ३, २७:
 ४ x x; द्विशी २१, १, २; वैथी.
 वेद्यु(दि-उ)धर-पुरीपा(ण-अ)दि-
 -दिभि: वैथी २०, २: १०.
 वेद्यु(दि-उ)धर- -वम् वैथी १, ३:
 ४^h.

a) = वेदि-अधिसमाप्त-। b) पाणे. वैप १ वेदिपुद: टि. इ.। c) इत्त. > पण.। d) एव. इति
 ३३७.। f. वेद्यति (दु. [अधेतः] लोमादित्वा) यद्वा वेद्यक्रियायाम् (दु. काश्री १६, ७, १८)। e) 'ताम् इति पाठ.।
 यति. शोचः। f) 'न्त इति पाठः। यति. शोचः। g) = मन्त्र-विशेष-। उप. चरणे इत्। h) पाणे. इ ११४१
 ८६.। i) इत्त. > वत्त.। j) वेद्यन्तम् इति संस्कृतः टि.।

वेद्यु(दि-उ) तस्वेदि-धिष्णियो(य-उ)

करो(र-उ) परव-खर-सदोहवि-
धाना(न-आ)दि- दिभ्यः वैश्री
२१; १० = ७^०.

वेद्यु(दि-उ) त्वांसवहिल्षवनाला-
स्ताव^० - अम् वैश्री १५, २३; ३०.

वेद्यु(दि-उ) द्रवत-अन- -त्म् मीस
१२, २, १६.

वेद्यु(दि-उ) घाना(न-आ) राम-समा-
प्रपा-तहाग-देवगुह-महागमस्थान-
नदी- -वीनाम् शंष १३३.

वेद्यु(दि-उ) द्रवत- -त्म् वैश्री १, ३; ४.

वेदितव्य- , श्वेव- प्रम्. ✓विद्
(ज्ञाने) द्र.

रवेद्य- रवेद- द्र.

वेद्यंस- प्रम्. रवेदि- द्र.

रवेद्य- ✓विष् (ताडने) द्र.

रवेद्य^० - घाः वीश्रीप्र १७; ५.

वेद्यस्^० - पाठ ४, २२५; - षं० घः आश्री

३, १०, १२; आश्री ३, ३, ३;

- घसः काश्री २, ८, १६१; षं० वीश्री

१, ८; १९; ११; २९; ३, १५ :

१२; २२; ३; आश्री; वाष १६,

२११; -० घसः यादि, ४१; - घसम्

शाश्री ६, १०, ५१; - घसा आश्री

१२, ४१; - षं० से आश्री ४, १३,

७६; आश्री ५, ५, ८६; १२, ३, २;

माश्री ५, ३, १६; माश्री १, ५, १,

१६६; वाश्री १, ४, १, ६६; वैश्री

१, ५; ११६; हिश्री ३, २, ४४०;

अश्र २, ५, १५६; ३, २४; चाश्र

७; ६६; या १०, ६०; - घाः निष

३, १५१^१.

वैधस- -सः शाश्री १५, १७, १.

✓वेम्(वेवा.)^१, षं० वेनति अष ४८,

१; १५^०; वृदे २, ५२६; निष २,

६०; १४०; ३, १४^१; पेनसि हिश्री

१५, ३७१.

वेन(ववा.)^० - पाठ ३; ६; पाग ४, १,

१५१^१; -नः षं० आश्री ४, ६, ३;

७, ४; ५, १८, ५; शाश्री; अष

४८, ८५१^१; अश्र २, ९, ८५^०;

वृदे १, १२४^०; वृश्र १, ४५३^१;

साश्र. १, ३२०; ५६१; अश्र

४; १; षं० निष ३, १५^१; १७^०;

५, ४; -नम् वीश्री १२, ७ :

५१; वृदे २, ५२६^०; अश्र वा ७,

३८^१; -नस्य शुश्र १, ४ ५३^१;

वाश्र ४, ३^०; -नाः अश्र १८, २६;

-नात् आश्री १७, १८, ११^१.

वेन्य, न्या^० - पाठ, १, १५१;

-० न्य आश्री १२, १०, ११;

आश्री २४, ६, ८; वीश्रीप्र ८ :

३; हिश्री २१, ३, ७; वैद्य ४, २,

६; -न्या अश्र २, १०, १४८;

साश्र १, ३१६; -न्यम् अश्र

२, १०, १२३; वृदे ८, ४१; ६६;

-न्या साश्र १, ३२०^१; -न्याः

आश्री २४, ६, ७; वीश्रीप्र ८ :

१; हिश्री २१, ३, ७; -न्यानाम्

वैद्य ४, ३, ६.

वेन-न्य आश्री २४, ६, ८; वीश्रीप्र

८ : २; हिश्री २१, ३, ७; वैद्य

✓वेप्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. क्मने,

वेपथ्यम् शाश्र ३, ७, २१^१, अषपर

माश्र २, १, १४^१; वेपेव वैश्री

२०, २४ : ८; हिश्री १५, ८, १.

षं० वेपिष्ठाः शाश्री १३, १, ३;

आश्री ९, १८, ३; वीश्री २८,

६ : ५; वैश्री २०, २४ : ८; हिश्री

१५, ८, १; षं० वेपिष्ण्वम् आश्री

६, २७, ३; शाश्री ७, ३, १; आश्री

३, ३, १; माश्र १, २७ : ३;

हिश्र १, १९, १; वेपीष्ण्वम् हिश्री

६, ७, ८^१.

वेपथु- पा ३, २, ८९; -थुः वीश्री

२, ५ : ३.

वेपन्^० - नाः वैश्री १, १ : २२; -नाः

अश्र १, २३ : ६१.

वेपमान- ने शाश्री १३, २, ३;

आश्री २, १८, ३; हिश्री १५, ८,

१.

षं० वेपस्^१ - न्यः अष ४८, ६१; १५६;

निष २, १.

वेपित- -ते वीश्री २७, ४ : ६११.

रवेमन्- ✓वे द्र.

रथेमन्- (> वैमन- पा.) पाग ४, ३

७५.

वेमन्- ✓वे द्र.

वेराणक^१ - (विराणकीय- पा.) पाग ४,

२, ९०.

विदे वाश्री ३, ४, १, ३२.

✓वेल् पाधा. भ्वा. पर. क्तने; युता अश्र.

कालोपदेशे.

वेलय^० - न्याः वीश्रीप्र ४१ : १०.

(a) वृ. सप्र. आश्री १४, २३, ११। b) एत. > अश्र.। c) सप्र. आश्री १२, १९, ७ यहिष्ण्वमाने-
स्तावम् इति, हिश्री ८, ५, २६ यत्र यहिष्ण्वमाने स स्तुवते इति पाठे। d) व्यप.। e) वैप १ द्र.। f) = विर-।
g) पाठे. वैप १ वेपुसे अ ५, १५, १ टि. द्र.। h) पाठे. वैप १ वेपुसे अ ७, ४६, १ टि. द्र.। i) केषादि-
नामन्-। j) = हरिरवन्द-। कषये भन् प्र.। k) या १०, १८ पराश्रुः द्र.। l) पा. अर्पाणा इति।
m) पा. मङ्गये श्रुतिः। n) पा. इच्छया श्रुतिः। o) पा. गती श्रुतिः। p) = मण-। q) = मृ-।
r) = शन्-। s) पा ८, ४, ३४ पराश्रुः द्र.। t) पाठे. वैप १ वेपथ्यम् टि. द्र.। u) वै इति अपठ. प्रप।

बेलच^१ - नः वैष ३, १४, ४.
 श्वेला- पाग ३, १, २७; -ला^२
 शांश्री १७, १५, ९; निस्
 ८, ६ : ३५; -लापाम्^३ द्राश्री
 ४, १, २१; ३, १३; ९, ४,
 १९; लाश्री २, २, ८; ३, १२; ३,
 ८, १०; निस् २, १३ : २७; पाग
 १, ४, ५७^४.
 ✓बेलाच पा ३, १, २७.
 रवेला^५ -> बेला(ला-श)र्ष- श्यानि
 काश्री १७, ४, २६.
 ✓बेल् पाषा. भ्वा. पर. बल्ले.
 बेचिपत्- , बेचिपाण- ✓विप् द.
 ✓बेची^६ पाषा. अदा. आत्म. गति-
 व्यातिप्रजनकान्तरमन्त्रादनेपु.
 रवेश- ✓विश् (बधा.) द.
 रवेला- (> वैलायन- वा.) पाग ४,
 १, ११०^७.
 वैशान्त- , वैशस्- ✓विश् (बधा.)
 द.
 वैशा- (> वैशा-मत्- पा.) पाग ८,
 ३, ९.
 वैष्मक- , वैश्मत्- प्रथ. वैश्म,
 इषा- ✓विश् (बधा.) द.
 वैष- ✓विप् द.
 वैषणा^८ - नवा मातृ १, ३, ६.
 वैष्ण^९ - न्केव काश्री ६, ५, १०.
 ✓वैष्ण^{१०} पाषा. भ्वा. आत्म. वेष्टे,
 वेष्टयेत् आपश्री १०, ९, ९; भाथी

१०, ६, ३; द्विथी १७, १, १३;
 पाट २, ६, २५; वेष्टयति आपश्री
 १८, १, १२; बौथी ६, ५, १३ x x;
 पाश्री; कौशु ४, -९, ३;
 वेष्टयतः^{११} वैथी-१४, ६ : १६;
 नृवेष्टयामि वीथी-६, ५ : १४;
 वीथ ३, २, ४; वेष्टयेत् वैष्ट २,
 ११ : ९; विष् ११, ४.
 वेष्ट- पाग ६, १, १५६^{१२}; -ष्टम् कौशु
 ७५, २३^{१३}.
 वेष्टन^{१४} - नम् शांश्री-३, १, ८.
 वेष्टयत्- न्यत् वीथी ११, -२;
 १६.
 वेष्टयित्वा आश्री ४, १२, x x x;
 आपश्री.
 वेष्टि^{१५} - ष्टिम् अप २८, १, ३.
 वेष्टित-> ष्ट-तिरस्^{१६} - नसः विष्
 ८१, १२; -ताः आपश-१, ६,
 १०; १४, २२; वीथ १, ५, १५;
 द्विष्ट १, ४, ५१; २, ३३.
 वेष्टितिन्^{१७} - णी आपश ३, ८,
 २; द्विष्ट १, २, ९०^{१८}.
 वेष्टितुम् द्विष्टि १२ : ४.
 वेष्टर शैति ३२७.
 वेष्टि^{१९} अप ४८, २१.
 वेष्ट्- पाठ ४, १६०.
 वेष्ण^{२०} - पाठ ३, २३; -ष्णः काश्री २,
 ७, २१.
 रवेष्ण- ✓विष् (व्याप्तौ) द.

रवेष्ण^{२१} - (> वैष्णोव- वा.) - पाग ४
 २, ६०^{२२}.
 ✓वेष् (बधा.)^{२३} पाषा. भ्वा. पर
 गतौ, वेष्ति विष् २, ६१^{२४}.
 वेस्^{२५} - (> वैष्क-)
 वेस्स^{२६} - पाठश्री २, ३, ६८; -न्त् वा
 ४, ११७^{२७}; -राणि या ४, ७.
 ✓वेष् पाषा. भ्वा. आत्म. प्रयत्ने.
 वेष्टत्^{२८} - पाठ २, ८५; वा २, १, ६५;
 पाग ३, १, १२; -हत् आपश्री
 १९, १६, १६; बौथी १६, २४ :
 १२; २५ : ११; २३, १२ : ३;
 २४, ३८ : १३; वाश्री; -वम्
 नृआपश्री १९, १६, १७^{२९} x x x;
 वीथी; -हवि द्विष्ट १, २५, ११.
 ✓वेहाय पा ३, ९, १२.
 वेहायमा(व>) ना- न्नाम्
 आपश्री १८, २१, ७; द्विथी १३,
 ७, १५.
 वै^{३०} आश्री २, ९, ४; आपश्री १, १४, ९;
 वीथी १, १ : ३; वापश्री, नाणि
 १, १, १^{३१}.
 ✓वै पाषा. भ्वा. पर. शेषवे.
 वैशान्तिक- विंशति- द.
 वैशालेय- विंशता- द.
 वैशङ्कत- , शी- विकृत- द.
 वैशङ्कृत- विकृत- द.
 वैक्यिक- विन्धा- द.
 वैक्यिताम् वाथी ३, ४, १, १०.

a) = जाति-विशेष- । b) अर्थः ? । c) = सम्य- । d) वा. किति. द. । e) = रथाव- ।
 व्यु. ? । f) वा ६, १, ६; ७, ४, ५३ परामृष्टः द. । g) स्व्य- । h) द. पाशा. । आप- इति माह्व. प्रथ. ।
 इ) अर्थः ? = पापविह- वा तुरिका बेति भाष्यम् । j) = मलावेष्टन- , पाठ- । व्यु. ? । द्व. पृ २३२२ । k) वा ७,
 ४, ९६ परामृष्टः द. । l) ता. कौशु ४, १५, ७ वेष्टयति इति पाठे. । m) ष्टयतः इति पाठः ? मनि. शोषः ।
 n) वेष्ट- इति पाठः । o) = पाठ- । p) नाप. । q) नाप. (पवित्र- [धनाधिक-वेष्टन-]) । r) मत्. ।
 s) द्विः प्र. उर्द. (पा ५, २, ८८) । t) वेष्टितो इति पाठः ? मनि. शोषः (द्व. आपश. [द्व. एष्ट. ? उपवेष्टितौ]) ।
 u) पाठः ? (विष् २, ६ मष्टि इति पाठे.) । v) वैष १ द. । w) अर्थः व्यु. न ? । x) द. पागम. ।
 y) द. BPD. । z) वा. इष्टयामो द्विष्टिः । a') वेष्टति इति दे. । b') पृ २२५४ c d. । c') = पाठ- ।
 d') पृ १९२३ h d. ।

वैक्यत^१ - (> षत-विध- पा.) पाग
 ४, २, ५४.
 वैकर- रविकर- द्र.
 वैकर्ण-, वैकर्णायन-, णिं-, ण्यंय-
 वि-कर्ण- द्र.
 वैकर्त- वि/कृत (छेदने) द्र.
 वैकर्त्य- रविकर- द्र.
 वैकर्षण-, वैकर्षिक- वि/कृप् द्र.
 वैकलि^२ - लयः बौधाय ४८ : ३;
 -लिः बौधाय ४५ : १.
 वैकल्पयत^३ - (> षवा-)
 वैकल्पिक- वि/कल्प द्र.
 वैकारि- रविकार- द्र.
 वैकारिक- वि/कृ द्र.
 वैकासेय- विकार- द्र.
 वैकि^४ - (> वैकारयन-)
 वैकुचासीय- विकुचास- द्र.
 वैकुट्यासीय- विकुचास- द्र.
 वैकुण्ठ- वि-कुण्ठ- द्र.
 वैकुण्ठ- विकुण्ठ- द्र.
 वैकृत-, षी-, वैकृत्य- वि/कृ द्र.
 वैक्ष- र्विधा- द्र.
 वैक्ष्यायण- बौध- द्र.
 वैखानस^५ - तः आमित २, ६, ५ :
 २०; बौध २, ९ : १७; बौध २,
 ६, १७; गौष^६ ३, २; २६; अश्व
 २, १०, १९१; अश्व २, ५२२६; २,
 २८१; ४, ५३; शाश २, २८२;
 या ३, १७१; -सम्^७ बौध
 १६, २४ : ८; द्विगौ; -साः^८
 वैश्री १२, ३ : १४; सु १३, ४;

१४, ४; बौध; -साह सुप् १,
 ११ : २४^९; -सानाम्^{१०} बौध ३,
 ३, १५; चाश ३२ : ९; ४० : ४.
 वैखानस-शाश-समुदाचार^{११} - रः
 बौध २, ६, १६.
 वैखानस(स-श)विं- विंशिः वृदे २,
 २९.
 वैकर्तायन-(> षक- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 वैगुण्य- वि-गुण- द्र.
 वैग्रजेय- विग्रज- द्र.
 वैग्रहि- रविग्रह- द्र.
 वैग्रि-, वैग्रय- रविग्र- द्र.
 वैघात्य- वि/घट्य द्र.
 वैङ्कि^{१२} - (ङ्गायन-)
 वैच्छन्दस- वि-च्छन्दस्- द्र.
 वैलगधक- विजगध- द्र.
 वैजात्य- वि/जन् द्र.
 वैजापक- विजापक- द्र.
 वैजावक- विजावक- द्र.
 वैजि^{१३} - (> षीय-)
 वैजुपनपुष्टधाम् वाश्री ३, २, ५,
 १२.
 वैटप- रविटप- द्र.
 वैटयत^{१४} - (> षवा-)
 वैडालकर्णक^{१५} - (> षक-कन्ध-)
 वैडालिकर्णक^{१६} - (> षी-कन्ध-)
 वैडालिकर्णिक^{१७} - (> षी-कन्ध-)
 वैडालिकर्णिक^{१८} - (> षी-कन्ध-)
 वैडुह^{१९} - हाः बौधाय १९ : ४.
 वैडूर्य- विडूर- द्र.
 वैण^{२०} - वाः वाघ १८, २; आप्य २, २,

६; बौध १, ८, १०; ९, १३;
 द्विध २, ९, २८; -गस्य सं
 ४३४^{२१}.
 र्वैणव- र्वैणु- द्र.
 र्वैणव- र्वैणु- द्र.
 वैणावत^{२२} - नैतय दशौ १०, २,
 १०; वाश्री ३, १०, ९.
 र्वैणु^{२३} - णवे शाण ४, १४, २; शाण
 १, १३, १५.
 र्वैणुक-, षीय-, वैणुक, षी-
 र्वैणु- द्र.
 वैणेष^{२४} - वाः नव्यु २, ३७.
 वैण्डिक- विण्डा- द्र.
 वैणिक- वेतन- द्र.
 वैणभवि^{२५} - वयः बौधाय २४ : ५.
 वैतरणी^{२६} - षी अण ९, ४, १; सं
 ३७४.
 वैतल^{२७} - खानाम् बौधाय २६ : १.
 वैतलेय^{२८} - वाः बौधाय २३ : २.
 वैतवाह^{२९} - दाः बौधाय ३० : १.
 र्वैतस- वेतस- द्र.
 र्वैतस^{३०} - सः अण ४८, १२४;
 निच ३, २९; वा ३, २११; -सेत
 वा ३, २९.
 वैतसक-, वैतसी- वेतस- द्र.
 वैतहृत्- ✓षी > वैतहृत्- द्र.
 वैतान-, षिक- प्रभु. वि/तर द्र.
 वैतायन^{३१} - > षन-सगोष^{३२} - अर्
 नव्यु ४ : २४.
 वैतालिकर्णिक^{३३} - (> षी-कन्ध-)
 वैतालीय- पाठभो २, ३, १४.

a) व्यप.। b) पृ १८२६ C द्र.। c) पृ १८२५ k द्र.। d) व्यप., नाप. सु.। <वितान-
 इति वाक. प्रभु., <वि-रानस- इति जे १९३, <वितानस- इति P.W. प्रभु.। e) = आधम-विशेष-। f) = ऋषि
 विशेष-। g) = साम-विशेष-। h) कस. > षस.। i) पृ १८२५। d.। j) पृ १०८१ d द्र.। k) पृ १८२५
 m द्र.। l) पृ १८२५ n द्र.। m) = आधि-विशेष-। <वेणु- इति प्रायेणः। <वोणा- इति (द्र. [१२]
 यास १, १६१ टि. द्र.। n) सप्र. मनुः ४, २१५; १०, १९ वे^{३४} इति पागे.। o) = धनुः (द्र. P.W. प्रभु.)।
 p) विप. (समुद्र-) इति B.W. प्रभु.। र्वैणव- (< र्वैणु-) > -वाय इति O.J.। q) = वातनेपथरात- वा
 तपथे- पा। r) = नदी-विशेष-। s) वेप ३ द्र.। t) = वैतान- (द्र. B.W.)। u) षस.।

वैतिल- (> लृक- पा) पाग ४, २,
५३

वैतुल- (> लृ कन्ध- पा) पाग
६, ३, १२५

वैतुपिक- विनुप- द

वैतुण्य- वितुण्य- द

वैत्रक-, वैत्रीय- वेत्र- द

वैद्-प्रसू विद्- द

वेदभ्रमक-, वेदभ्रम- वि/दृद् द

वेदजि^०- (> शोय-)

वेदत-, वेदधिन- √विद्(शाने) द

वेददश्वि- √विद्(लाभे) द

वेदन्यत- विदन्यत- द

वेदभृत-, १ वैदभृत्य- √विद्
(शाने) द

वेदभं- १विदभं- द.

वेदभिं- २विदभं- द

वेदर्वे-, वेदर्व्यं- वि-दर्वे- द

वेददल- १विददल- द

वेददल- ३विददल- द

वेददलक- १विददल- द

वेदार्थ- विदार्थ- द

वेदिक-, वैदुप- √विद्(शाने) द

वेदूर्ध्व- २विदूर्ध्व- द

वेद्वह-, १वैद्वहक- विद्वह- द

वेद्वहक^०- क शौष १, ९ ७, शौष ३,

१४, ५, -काद् शौष १ ९,

१२, वैष ३ १५, ५, -कानाम्

विष १६, १९

वैद्य- √विद्(शाने) द

वैद्यानि^०- ने चाभ १३ ४^{१०},

१७ ८

वैद्युत-, वैद्युदत्तो- वि/द्युत् द

वैद्यर्ष्य- रवि र्ष्य- द

वैद्ययेय- वि यवा- द

वैद्यस- वैद्य- द

वैद्यान- वि/धा>वि धान- द

विधृत्य^०- -त्ये शौष १४१, २९

वैद्येय- वि/पा>१विधि द

रवैद्येय- २विधि- द

वैनतीय- १विनत- द

वैनतेय- २विनता- द

वैनद- विनद- द

वैनयिक- वि/नी द

वैनादक- विनाद- द

वैनायक-, वैनीयक- वि/नी द

वैनोद- विन १, नोद- द

वैन्य- √वेत् द

वैपयक- ३विपय- द

वैपरीत्य- वि परी(रि/द) द

वैपरेत- तम् भ्रम १ ३०

वैपश्चित- २विपश्चित- द

वैपश्यत- २विपश्यत- द

वैपात्य- वि/पा द

वैषादिक- विषादिक- द

वैषाश- १विषाश्- द

वैषाशक- विषाश- द

वैषाशासन-, ष-य- १विषाश्- द

वैषेय- (> ष्य विघ- पा) पाग ४,

१ ५४

वैषकर्विक- वि प्र/कृप् द

वैषचिति- स्ति- विप्रचित [त]- द

वैषयोगिक- वि प्र/द्युत् द

वैषमिनक- वि/कृष् द

वैषुप- वि/द्युत् द

वैष्वय^०- -व्य लाभो ६, ११, ४

वैषवाघदोघत^० दनि १, ११^१

वैषमक्त-, वैषागन-, वैषाविष-

वि/मत् द

वैषमन्क- १विषमन्- द

वैषापिक- वि/भाप् द

वैषीतक- विषीतक- द.

वैषीदक- विषीदक- द

वैषूवस^०- -स्त शक्रा ९ १७^१

वैषमतायन^०- पाग ४, ३, ८०^३, -ना

शौश्रीत्र ४८ १

वैषमतावनक- पा ४, २, ८०.

वैषमत्य- १विमति- द

वैषमत्य- २विमति- द

वैषमदी- वि-मद- द

वैषमन- २वैमन्- द

वैषमनस्य- वि मनस्- द

वैषाम्नेय- विमाशु- द

वैषुक- वि/सुप् द

वैषुघ- षी- वि/सुप् द

वैषुलकश- व्यलकश- द

वैषुलकस- व्यलकस- द

वैषुशन- व्य(वि/क)श्(व्याश्री) द

वैषुह्य- व्यह- द

वैषाकरण-, कृत- -व्य/कृ द

१-वैष्याघ्न-, ऋषदप- व्याघ्न- द

वैषात-, ष्य- वि/या द

वैषाय- १व्याय- द

वैषासक- व्य(वि/क)श्(क्षेपणे)

द

वैषुष्ट- वि/वत्(दीप्ती) द

वैर- वीर- द.

वैरकि^०- (> षासन- पा) पाग २,

४, ६१

वैरङ्गिक- वि/रङ्ग् द

वैरणक- वीरक- द

वैरह्य- १विरह- द

वैरमण- वि/रम् द

वैर्यणम् वैश ३, २१ १

वैरह- विरह- द

a) पृ १८३५ । द । b) = जाति विशेष । c) व्यप । d) निर्विघ्नं पाठ । रनि शौष ।

e) अर्थ यु ४१ । = सूर्यकन्द्रयो । एकत्रयोग । <वि छक्ति- इति MW । वैरह- इति गुञ्जे । f) = साम विशेष ।

g) वैष ३ द । h) अर्थ ? । <वि मत- इति MW ।

वैराकण^० (> ञीय- पा.) पाय
४, २, १०.

वैराज- प्रभु, वैराग्य- वि/राज् द.

वैराटक- विराट- द.

वैराणक- (> ञीय- पा.) वैराणक-
टि. द.

वैराघट्य- वि/राघ् द.

वैरिञ्च^० -ञः वैध १, ७, २, ५, ६.

वैरुद्धक- वि/रुद् द.

वैरुष- प्रभु, २वि-रुष- द.

वैरूपक- विरुपक- द.

वैरूपाक्ष- वैरुष्य- २वि-रूप- द.

वैरेय- वीर- द.

वैरोहित- , हित्य- विरोहित- द.

वैल^० -लाः वीथीप्र १४ : ६.

वैलम्य- , म्य- विलम्य- द.

वैलात्य- विलात- द.

वैलाम्य- वि/लम् द.

वैलिवासिष्ठ^० -शान्मा^० वैष ४, ६, २.

वैलेपिक- वि/लिप् द.

वैल्य^० (> वैल्ययन-)

वैव^० शांभी १४, ५०, १.

वैवचन^० -नः शांभी १, ५, १.

वैवधिक- वि/वध् द.

वैवस्वत- , वी- प्रभु, विवस्वत्- द.

वैपाकवि- विपाकु- द.

वैवाहन- , हिक- , ह- वि/वह् द.

वैविकीय- वि/विच् द.

वैविष्य- विविष- द.

वैवृत्त- वि/वृत् द.

वैशान्त- ✓विश्(वपा.) > वैशान्त- द.

वैशाम्पायन- विशाम्प- द.

वैशाम्यलया- न्या शांभी ४, १४,

४१६.

वैशाम्भल्या^० -न्या भाति ५८१६.

वैशास- , स्य- , स्य- वि/शम् द.

वैशास्य- विशसि- द.

१-२वैशाख- ३विशाख- द.

३वैशाख- ५विशाला- द.

वैशाखी- ३विशाख- द.

वैशात्य- विशात- द.

वैशायन- २वेश- द.

वैशाव्य- १विशाय- द.

वैशारद्य- विशारद- द.

वैशालकि- , वैशालायन- , वैशालीय- ,

वैशालेय- २विशाल- द.

वैशाल्य- १विशाल- द.

१-२वैशिक- ✓विश् द.

३वैशिक- विशिक- द.

वैशिल- विशिखा- द.

वैशिप्र^० -प्राः वीथीप्र ४१ : २.

वैशीतायन- , ति- विशीत- द.

वैशेय- ३विश- द.

वैशेषिक- वि/शिप् द.

वैदिमक- , वैदमीय- , वैश्य- ✓विश् द.

वैश्रवण- विश्रवण- द.

वैश्रवस- २विश्रवस् द.

वैश्रेय- विशि- द.

वैश्वकधिक- प्रभु, विश- द.

वैश्वम् दिधी १३, २, १०.

वैश्वरूप- , म्य- , वैश्वलोपी-

प्रभु, विश- द.

वैश्वस्त्य- वि/वस् द.

वैश्वानर- प्रभु, विश- द.

वैषमस्य- , म्य- विषम- द.

वैषय- विषय- द.

वैपुवत- , पीय- विपु- द.

वैष्क^० - ष्ठम् गौष ३, ३१.

वैष्णुरेय- विष्णुर- द.

वैष्टिक- विष्टि- द.

वैष्टुत- वि/ष्टु द.

वैष्टेय- ३विष्ट- द.

वैष्ट- पाठभो २, ३, ७७.

वैष्णव- प्रभु, वैष्णुन- , वैष्णुव-

वैष्णुद- , श्वापन- विष्णु- द.

वैष्य- १विष- द.

वैसर्गिक- , वैसर्जन- , वि/वर्ग द.

वैसर्प- वि/वर्प् द.

वैसारिण- वि/वृष्ट द.

वैसिक- वेस- द.

वैस्फोटक्य- विस्फोट- द.

वैस्त्रेय- वित्ति- द.

वैस्वयं- वि-स्व- द.

वैहति^० (> वैहतायन- पा.) शा

२, ४, ६१.

वैहलि^० -लिः वीथीप्र ३ : १०.

वैहव, वी- वि/ह्व द.

वैहायस- , पी- १वि-हायस्- द.

वैहारिक- वि/ह्व द.

वैहीनरि- विहीनर- द.

वैहोद^० -नः वीथीप्र २० : ३.

वैफल्य- पाठभो २, २, १२६.

वैड^० -नः मय ४३, ३, ५.

वैडवे प्रभु. ✓वृद् द.

वैडक- पाठभो २, २२.

वैडपा^० -पा मय ४८, ७४१.

वैडस^०, वैडस^० शांभी २४, १४,

१११.

वैवीर्य^० शांभी १, १, २१; शांभी २१,

a) व्यप. । b) तु. पावम. । c) = [सपलीक-] मानप्रत्यय-विशेष- । d) ११८१५०६. ।
e) १३२३३३. । f) पाठः? द्वैषचन- (< द्विषयन-) > -नः (प्रत्ययः) इति शोधः । g) पत्ते. शेष २, ३११.
वैशाम्भल्या उना २, ५, ६, ९ टि. द. । h) वैष २, ३६६. द. । i) रूपीः! = पशु- [सपलीक-] । शिव-
(= व्याघ्रादि- , [पशु] पाठ- इति अत्र. प्रभु.) + तेनहृतेऽर्थे ण्य् द. (तु. गाम्भ्य्) । अत्र. प्रभु. द्वैष- इति शोधे.
(द. म्हे [म्हे] षु- [वैष] , वेष्णु- [ए २३१९, वैष २ व]) । j) = रात्री- । k) मय. ।

७, १६; २४, १४, ११; गाथी;
 ऽगाय १, ४, ५७; ६१;
 पुंवौषट् गाथी १, ५, १५;
 वेताथी १२, ८; वौपट् वीथी
 १६, ५: ७; १४.

वौपट् > वय वा १, ४, ६१.
 वौपाट् > आपथी २४, १४, १११.

व्यंस् > -सम् वृदे ७, ५८; -सस्य
 वृदे ६, ७७.

पुंन्यदण्ण > आपथं २, ३, ३; ७, २७;
 काय ४१, ५.

व्य(वि-अ)ङ् > पाग ७, १, ७; -ङः
 वीथी १७, ११: ११; काय २७२;
 ५.

व्याहि- पा ७, ३, ७.

√व्यङ्, व्यङ्गयेत् आपथी १२,
 १६, ८०; १७, १७, ७१^१; द्विथी
 १२, ५, ३७^१.

व्य(वि-अ)ङ्गात् > परिन्-
 -रिणि कय १, ९, १२.

स्व्य(वि-अ)ङ्गात् - रे वीथ २, ६,
 ३४.

पुं√व्यच् पाथा, तुदा, पर, व्याजीकरणे,
 विष्यच् वीथी १५, ६: १२.
 विव्याच गाथी ५, १, ५, ४०.

पुंव्यचस् - च: अया ३, ४, ५;
 -चला अथ ११, ३ (२).
 व्यचस्-काम- -म: कौत् ५२,
 १०.

व्यचस् > कृ, व्यचस्कोति कौम्
 ७२, ११.

पुंव्यचस्-व(र)तो- ती

आथी ४, १२, २^१; वाथी २, १,
 १, २०; तैथा ४, १९; -वी: वा
 ८, १०; -तीम् वाथी २, २, २,
 १७; द्विथी ११, ७, २८; १२,
 १, ९; ४३.

व्य(वि-अ)ङ्, ङ्, व्यच्येय गाथी
 ५, १, १०, ३५^१.

व्य(वि-अ)ङ्गमान- -पुंम् वीथी
 १, १७: २३; आभिष्ट १, ७, ३:
 ३६.

व्य(वि-अ)ङ्गन- > -र-व(र) >
 ती- -व्य: वा ८, १०.

व्य(वि-अ)ङ्, पुंव्यज्यते आरथं १,
 ६, ८; काय ३१, ४; वीष्ट १, ५,
 १०.

व्य(वि-अ)ङ् - पा ३, ३, ११६.

व्य(वि-अ)ङ्गन- -नम् विथ ६५,
 १४.

व्यज्जान(न-आ)दि- -दिना कय
 १, ९, १४.

व्या(वि-आ)ङ् - जेत् विथ ५८,
 ११.

व्य(वि-अ)ङ्, पुंव्यजते वेताथी
 १०, ४; कौम् ८८, १६; अथ
 १८, ३.

व्यज्जयेत् वीथी २५, २३: ७.

व्य(वि-अ)ङ्, का- पाग ६, २, २४;
 -कम् जैथी १२३; पुंवीपि
 १, ४: १०; १५: ५; तैथि;
 नाथि १, ३, १^१; ५^१०; -कया
 वीथी २०, १: ४९; -कस्य
 माथी ५, २, ८, ३४; -का:

आथी ८, ८, ४^१; गाथी १०, ५,
 २४^१; अथ ६१, १, ३; अथ;
 -काम् वीथी २३, १३: २२;
 -काम् वीष्ट १, ६, २३^१०;
 -के आथी २, १४, २४; आपट्
 १४, ९; -कै: आभिष्ट ३, ४, १:
 १५^१०.

व्यक्त-वोदना- -नाम् आथी ३,
 ४, १०.

व्यक्त-वर- -रे वा १, ९.

व्यक्त-पदा(द-अ)क्षर- -नम्
 माथि १, ३, ६.

व्यक्त-प्रतिषेध- -य: पावा ८,
 २, ४८.

व्यक्त-माथ- -पयानि विथ २०,
 ४८.

व्यक्त-लक्षण- -जे अथ ६३,
 १, ८.

व्यक्त-वाच् - वाच: वा ११,
 २१; -वाचाम् पा १, ३, ४८.

व्यक्ता(अ-आ)चात् - र: वाथ
 १०, १८.

व्यक्ती > कृ, व्यक्तीकरिष्यामि
 पाथि २.

व्य(वि-अ)ङ्कि- -कया कौथि २५^१;
 -कि: वीथि ८३; ८५; पावा १,
 ३, ५२.

व्यक्ति-वचन- -ने पा १, २,
 ५१.

व्य(वि-अ)ङ्गन- -नम् द्विथी २१,
 १, १४; वीष्ट १, १०: ८; गोष्ट ४,
 ४, २०; अथ ४३, १, ८^१; १६;

a) अथ. । b) व्यप. । c) पाठः इ व्यङ्गयन्, व्यक्षिणन्, पणि. नेति मूले. <व्यचस् (<वि
 √ह्व) इति संभाव्येतेति आपथं (मू. XXXI टि.) । d) वस. । e) विकर्षयेत् इति भाष्यम् । f) पाथे. वैप १
 विचालयेत् काठ २१, १० टि. द. । g) मलो. कय. । h) पा १, १, १६ पावा १, २, १ पराएष्टः द. । i) वैप १ द. ।
 j) पाथे. वैप १ विद्वन्वचः तै ४, ४, १२, ५ टि. द. । k) =ताल-वृत्त- । l) =पानसुख्यतिविशेष- । m) पाथे.
 वैप १, १८६६ h द. । n) सपा. अ १०, १४, ९ वद्वचम् इति पाथे. । o) वच. > दृष्ट. । p) =विप्र-रीत्या- ।
 द्वय. । q) व्यञ्जनसाधन- (सुशकादि-), कनारादि-वर्ण- (पा. ज्ञात्रा. अष्ट.) । रप. कर्मणि करणे य प्र. ।

श्रमा १, ५; २२, ४; उस्; श्रमा १, ४७; ५९; १०७; तैत्रा १, ३७६; १४, ११; २१, १; पा २, १, ३४; -नस्य श्वे २, ११६; श्रमा १४, १५; शुभा १, ३८; शैवि ५७, ७२; २५२; पावा १, १, ७३; -नात् श्रमा १४, ४०; १८, ४४; शौच ४, २५; नाशि २, २७; -नानाम् कप्रा १४, १६; तैत्रा १, १६; २१; -नानि शौची १, २, १२; निस् ३, २: ४१; ७, १०: ३२; शान्ति; -ने श्रमा ७, १; शुभा ३, १६; १३२; श्रत; -नेन आधौ ८, १२, १३; श्रमा ३, १७; नाशि १, ८२; -नेभ्यः^१ श्रापय २, २६, १३; श्रिय २, ५, २०७; -नेषु श्रमा ८, ४८; -नैः वाधौ ३, २, १४; गोए १, ४, ३; चर १, ३, १३; श्रय ७१, ६, ४; शौच ३, ८, १०; शुभा १, १००; नाशि २, ४, ६; पा ४, ४, २६.
 व्यञ्जन-काल- -तः तैत्रा १७, ५.
 व्यञ्जन-द्वय- -ये शैवि ५२.
 व्यञ्जन-पर- -रा शुभा ४, १०७; तैत्रा ३, १; ५, १४; ३७; १४, २८; -रम् तैत्रा १४, १; -राः शुभा ४, १५९; -रात् उल् ४, १९.
 व्यञ्जन-प्रतिषेध- -धः पावा ६, ४, १६.
 व्यञ्जन-मात्र- -अम् या ७, १३.
 व्यञ्जन-सुष- -तः शुभा १, ११७.
 व्यञ्जन-विधारण- -अम् शौच

१, ४३.
 व्यञ्जन-व्यवेत- -तः शौच ३, ६२.
 व्यञ्जन-शेष- -यः तैत्रा १, १४; -यम् अय ४७, १, १७.
 व्यञ्जन-संगम- -अम् कप्रा १८, ४०.
 व्यञ्जन-संनिपात- -तः कप्रा १, ३७; -ते निस् १, १: २५.
 व्यञ्जन-स्थान- -नानि निस् ३, ३: १.
 व्यञ्जन-स्वर-व्यतिश्रम- -मे पावा १, १, ५०.
 व्यञ्जना(न-आ)रया- -रया नाशि २, ५, ६.
 व्यञ्जना(न-आ)दि- -दि उस् ८, ६; -दिषु लाधौ ६, १०, १६; -देः उस् ८, १४; १६; -दौ शौच ४, ५०.
 व्यञ्जना(न-अ)निकृत्ति- -नितः पावा ६, १, २.
 व्यञ्जना(न-अ)न्त,न्ता- -न्तः शौची १, ५, ९; -न्तम् भाशि १०, ८; ११, १; -न्तायाः द्विथी २१, २, ३४; -न्तो पावा २, ४, ४३; -न्तेषु शैवि ११५; पावा ६, १, २१९; ४, ५६.
 व्यञ्जनान्ता(न्त-अ)र्थ- -र्थम् पावा ८, २, ८२.
 व्यञ्जना(न-अ)न्तार्हित- -तः तैत्रा १४, ३०.
 व्यञ्जना(न-अ)र्थ- -र्थम् श्रापधौ ८, ४, ११; माधौ ८, ३, २७.
 व्यञ्जनो(न-उ)पत्- -रयोः तैत्रा १४, ५.
 व्यञ्जनो(न-उ)द्वय- -ये भाशि

१०, ३; १२, ३.
 व्यञ्जनो(न-उ)द्वय,वा- -यम् श्रमा ७, ३३; -यात् श्रमा ६, ४६; -याम् नाशि २, ६, ८.
 व्यञ्जनोदा- -दा नाशि २, ६, ७.
 व्यञ्जनो(न-उ)प(वा>)र्- -यः श्रमा ७, ८.
 व्य(वि-अ)ञ्जित- -तम् श्वे १, ६.
 व्यङ्ग, व्यङ्गि- -यम् ७, ३, ७.
 व्यङ्गि- -या ७, ३, ७; पावा ४, १, ८०; २, १३८; ६, २, ६६; श्राप ४, १, ७९; -ङ्गिः श्रमा ३, २३; २८; १३, ३७; पावा १, २, १५; -ङ्गेः श्रमा ६, ४३.
 व्यङ्गय- -ङ्गा पा ४, १, ८०; पावा ४, १, ७९.
 व्यङ्गि-शाकल्य-नामर्थ- -नार्थः श्रमा १३, ३९.
 व्यङ्गि-शाला- -शा पा ६, ३, ६६
 व्यङ्गीय- पा ४, २, १३८.
 व्यस्- ✓वी द.
 व्यति- -तिरिव श्रापधौ ६, २, १६; शौची ९, ६, १६; १८, १६, १०.
 व्य(वि-अ)त्ति ✓पूर्(विशेषे)>रति-कोर्ण- -नम् श्वे २, १०४.
 व्य(वि-अ)त्ति ✓प्रम्, व्यतिश्रम्य इत् २, ५, ७.
 व्यनि-काम- -कामः कप २, ५, ६; ६४, १०, २; वाप ३, १; -अम् लाधौ ७, ११, ११; -अम् श्रापधौ १०, ५, ११; -ये श्रापध ६, ५; ६६, ४, २, १३; १५; शौच.
 व्यनि-कम्प वाधौ १, ३, ५, ११; कप २, ४, ३.

a) = ध्वज-वन्द- । b) = पुं-स्यञ्जन- (सन्त-वादि-) । c) यम् । d) श्रापधौ इति लाधौ । e) श्रमा पाठाः । f) म्प्य । g) वैव १ द. । h) = पद-निर्देश- ।

व्यति-कान्त-न्ते संघ १९.
व्य(नि)ति/क्षिप्>व्यति-क्षेप-
ये गीघ १०, ६६.

व्य(नि-भ)ति/चरु > व्यति-चारम्
बौधो २१, २: १५; २३, ६:
१; २५, १: २२.

व्य(नि-भ)ति/नी>व्यति-नीय
आधो १२, ६, ३०.

व्य(नि-भ)ति/पच् > व्यति-पाक-
> प्का(क-अ)र्ध- -धम् पावा
३, ३, ४३.

व्य(नि-भ)ति/पत् (गती), व्यति-
पतेयुः घष १, ३६, ५.

व्य(ति)>नी-मात-न्तः-विष ७७,
४; -ते आगिणु २, ५, ६: ११;
७, ६: २२; ८: २६.

व्य(नि-भ)ति/मृश् > व्यति-
मर्शन् आधो ८, ३, ६; ११;
११.

व्य(नि-भ)ति/रिच् > व्यति-रेक-
कः पावा ५, २, १४; मीस् ९,
२, ५; -केण बौधु ६: ७.

व्यतिरेक-पावभेद- -दान्याम्
मीस् ६, ६, ३०.

व्य(नि-भ)ति/वह् > व्यत्यु (ति-
क)व- -डी वाधुधो ४, ११५:
४.

व्य(नि-भ)ति/वृत् > व्यतिकर्तव्यम्
बाधो ३, २, १, ४३.

व्य(नि-भ)ति/व्रज्, व्यतिकर्तव्य
आपघ १, १४, ३०; २०, ६; हिप
१, ४, ५; ७, ४४.

व्य(नि-भ)ति/प(ल)ज्, व्यति-
पकते आपधो २०, १०, १; द्विधो
१४, ४, ६; व्यतिपकति आपधो
१८, १६, १५; २१, १२, १०;

बौधो; व्यतिपकेव आपधो १४,
६, २; बौधो.

व्यति-पक, ता- -क्तः आपधो १४,
३, ४; -कम् वाधुधो ४, १०:

२२; कौस् १८, ३४; -क्तः
बौधो २५, ५: ३; वाधुधो ४,
१०: १६; वैधो १९, ५: २२;

आगिणु ३, ५, ५: ३; अगो २३,
४; बौधु १०: २३; ३०; १४:
६; -क्तान् आपधो ४, १४, ९;

१७, ५, ८; बौधो ९, १५: २१;
वैधो १३, १: ११; -क्तान्
बौधो २६, २४: ११; -क्तानि

बौधो १८, ५०: २४; २७;
-क्तान्याम् बाधो १६, २, २२;

-क्तान् आपधो १४, ६; -के
कता २३, ४; -केयु आपधो

२४, ३, २३; -कौ आपधो २,
१२, ६; बौधो २, १५: १०; १८,
५०: २५; २०, १२: १६; छप्

२, ६: १२; २७.

१ व्यति-पक्- -पाग ७, ३, ५३.

२ व्यति-पक्- -क्तः बौधु ४: २३;
-क्तम् आपधो १८, २, ७; २१,
१३, ७; बौधो ९, ७: १९; ११,
१: २३; २६, २४: १०; द्विधो

८, ६, ५; २३, १, १५; -ज्ञाय
बाधो ११, ४, १६; निस् ५, २:
२; -के खा ७०, ६, २.

व्यति-पक् आपधो ७, ११, ८: २०,
१०, ११; बौधो.

व्य(नि-भ)ति/पि (< ति)च् >
व्यति-सिच्य बौधो ५, १७: ६;
१०, २२: १७; १२, १: १६;
४: १७.

व्य(नि-भ)ति/हृ, व्यतिहरति निस्
३, १०: २७; ५, २: १; व्यति-
हरतः आधो ५, ५, १६; आपधो
८, ६, १६; माधो ८, ५, १३;
बाधु १६, २; व्यतिहरति बाधो
८, २, १३; २१; ३, १४; १६;
९, ३, ५; लाधो; व्यतिहरेव छप्
२, ६: १३; २८; १५: ३०;
३, ५: १६; ६: १५; १६:
१४; व्याधो; व्यतिहरेयुः छप्
२, १४: २१.

व्यति-हरत्- -न्त् मोघ १, ३, ५.
व्यति-हार- -न्त् निस् ३, १०:
३७; -रे पा ३, ४, १९.

व्यति-हारम् बाधो २, ४, २, १९.
व्यति-हृत् बाधु १, ६, ८.
व्य(नि-भ)ती (ति)हृ, व्यतीतः
आपधो १२, २६, १५; वि...
सतिपग्नि निस् ७, ९: ३.
व्यती(ति-हृ)त, ता- -न्त् विष ९७,
१; -ताः विष २०, २३; -तायाम्
विष १, १; आगो ७, ६; -ते
बौधो २७, ६: २७; २८;
वष ३०, २, ७; शीघ ३६५;
विष २२, ४०; ४२; २४, ४०;
-तेयु बौधो २७, ६: २८.
व्यत्यु(नि-भ)य- -न्त् निस् ९, १३:
४३; पा ३, १, ८५; पावा ३,
२, १; -यम् आधो २, १, २५;
लाधो १, ५, १९; वरे ६, १७;
-याव अना ३, ३, २१; -येन
पावा १, १, ६.
व्य(नि-भ)ती (ति)हृ > व्यती
(ति-हृ)ता- पावा ३, १, ४३.
व्य(नि-भ)ती (ति)हृ > व्यती

a) = [उप्योत्ति] योग-विशेष- । b) इत्त. । c) उप, कर्तव्य मच् प्र. । d) वष, मोघ

(ति ई)हा- पायाम ३,३,४३
 व्य(वि अ)त्य(ति/अ)स् (क्षेपणे),
 व्यत्यस्यति निरु ३, ११ १५,
 ८,५ ३२, ९, २ ६, व्यत्य-
 स्यन्ते निरु १,१३: ६, व्यत्य-
 स्येत् लाश्री १०, ७, ८, ८, १,
 निरु ५, ४ १, १३, कौरु ५,
 ३,३०

व्यत्य(ति अ)सिन्पत्- -व्यन् निरु,
 ९,४ १०, १६

व्यत्य(ति-अ)स्त, स्या- -स्तम् हिश्री
 ९, ८, २५, -स्यात् आपश्री
 १५, ७, ४, भाश्री ११, ७, ११,
 हिश्री २४, ३, १, -स्ते वाश्री
 १,६,६,११

व्यत्यस्त कर- -र विघ २८,
 १५

व्यत्य(ति-अ)स्य कौरु ३, ११, ४,
 शौरु ४, १०, ५, आश्रित

व्यत्या(ति आ)स- -स लाश्री १७,
 ७,६, निरु ६,८ १५, १०,
 ४ १३, -सम् निरु ३, ११
 १८, अम ७०^३, ४, ५, -से, निरु
 ३, ११ १८, माश्री ९, ४^०,
 -सेन निरु ६, ३ १७, ७,
 १० १६

व्याया(ति-अ)सम् आश्री ८, ३,
 २५, ९, ८, १६, १०, ४, ५,
 शश्री १५ १,८, काश्री

व्यत्युद्- -व्यति/वड द
 √व्यध् वापा भा आम मम
 सचलनयो, व्यधते वीश्री २८,
 १० ३१, वाधुश्री ४, २३ ५,
 ८, वाश्री, व्यधते हिश्री ११,

३, २४^१, व्यधन्ते व्य १, ६, १,
 ४, व्यधताम् हिश्र १, २३, ११,
 व्यधते शाश्री १७, १०, १५,
 विघ २६, ४, व्यधेयाताम् शश्री
 १७, १०, ९, व्यधेरन् आश्री २,
 ८, ४
 व्यधिष् हिश्री १५, ७, ८^१,
 व्यधिति हिश्र १, २३, ११, कौरु
 ७३, १५^१

व्यधय > वा ऋषा ८, ३४^१

व्यधमान- -ना विघ ४३ ३६
 व्यधित- -त्त. आपश्री १५, १७,
 १०, वीश्री ९, १७ १८,
 भाश्री ११, १८, १, -तन् आपश्री
 ७, ३, १४^१, १५, १७, १९,
 वीश्री ४, २ ९, भाश्री ७, ३,
 १^१, भाश्री १, ७, ३, १५^१,
 हिश्री ४, १, ४३^१, -ते आपश्री
 १५ १७, १०, भाश्री ११, १८,
 १

व्यधिस- -यि. निघ २, १३^१
 व्य(वि/अ)द्, व्यदन्ति वा ४, ६^१

√व्यध् प्रथ √विम् (ताडने) द
 व्य(वि-अ)ध्व- -न्वे काश्री १६, २ ३
 व्यधो(ध्व-अ)वृकान्त- -न्त्वो।
 काश्री १०, ८, १९

व्यध्वर- -र आपम २, १६, १५ १७,
 हिश्र २, १६, ५^१

व्य(वि अथ >)ध्वा- -न्वापा वीस्
 ४९ ८, -ध्यायाम् वीस् ११६,
 ३^१

व्य(वि/अ)न् (प्राणने), व्यनिति
 आपश्री १७, १, १३, २४, ११,
 १३, वीश्री १९, ३, ५, व्यन्यात्

आपश्री २४, ११, १३^१, वीश्री
 १०, ३१ १५

व्य(वि-अ)नत्- -नता आपश्री १२
 ८, ६, -न् आपश्री १२, ८, ९

व्या(वि-आ)न- -पाए १, १६, १२^१,
 -१न काश्री २५ १०, २३,
 आपश्री, -१न् आपश्री १, ५,
 ९, ६, ९, ३, वाश्री, -मात्
 आपश्री १६, ३२, ३१, -१न्म
 आश्री ५, २, ३, काश्री २, ४, १६,
 आपश्री, -१ने आपश्री २ २१

१, हिश्री २, ५, ४०x४, आश्रित
 १न्धान-ना- -ना आपश्री १७
 ५, १६, वीश्री १८ ३१ १६,
 हिश्री ११, ८, १०

१न्धान-पा- -पा आपश्री १२
 २१, ११, वीश्री १५ २७ ४

व्य(वि-अ)न्त- -पा ६, २, १८^१,
 -न्तम् वीश्री २, ९ ५ -न्तत्
 वीश्री २०, १६ ९, -न्तत् आपश्री
 ६, ५, ६, वीश्री ३, ५ ४, भाश्री
 ६, १०, ५, वीश्री २, २ १९, हिश्री
 ३ ७, २७, कौरु १, ३, ११

व्य(वि-अ)प/छ्प्र > व्यप-कण- >
 षं विज्ञान- -न्नात् पावा ७ ४,
 ६१

व्य(वि अ)प/अम्, व्यपकणत् वीश्री
 ६, ३३ ११^१

व्यपकणु वीश्री १८, ४^१ ३

व्य(वि अ)प/मच्छ/गम्, व्यप
 चञ्जित वीश्री २, ९ २६

व्यप गत- > ष-मम लोभ-मो
 शोष शोष शोष-मद-माम
 वल्लभ- -वत्य धप १६१

व्यप गत- > ष-मम लोभ-मो
 शोष शोष शोष-मद-माम
 वल्लभ- -वत्य धप १६१

व्यप गत- > ष-मम लोभ-मो
 शोष शोष शोष-मद-माम
 वल्लभ- -वत्य धप १६१

व्यप गत- > ष-मम लोभ-मो
 शोष शोष शोष-मद-माम
 वल्लभ- -वत्य धप १६१

व्यप गत- > ष-मम लोभ-मो
 शोष शोष शोष-मद-माम
 वल्लभ- -वत्य धप १६१

व्यप गत- > ष-मम लोभ-मो
 शोष शोष शोष-मद-माम
 वल्लभ- -वत्य धप १६१

a) वस. उप = पाणि-। b) श्लेष > श्लेषु भा इति नियद् शोष (य संसर्गुं टि)। c) पा
 ७, ४, ६८ वराण्ठ द। d) = रापा वा ५, ३, १ प्रथ। मा ५, ९, मात् ३, ५, १, ३० व्यपिन्तात् द्वा कणे।
 e) वैप १६। f) = अर्ध-वर्ण-। प्राय उप < मध्यन्- (पा ५, ४, ८५)। g) इत्। h) = गतु
 विज्ञेय-। उप कर्त्तरे इत्। i) इ २६५ ० द। j) उप < √वा (रसणे)। k) प्राय।

व्यपवत-रदिम-मण्डल- -लः
अप ५१, ३, १.
व्यपगत-रदिम-वत्- -वात् थप
५१, ३, १.
व्य(नि-अ)प √ गा, व्यपगात् गौपि २,
५, १२१.
व्य(नि-अ)प √ च्छद् > व्यप-च्छाय
भाप्रौ ८, २०, १०.
व्य(नि-अ)प √ द्दिद्, व्यपदिशेत् वीथौ
२०, १७ : १९.
व्यप-दिह- -लः वाप १२, ३९.
व्यप-देश- -दाः मीम् २, १, ४१;
२, ७; ३, ६, ४२; ४६×४;
-धात् मीम् २, १, ३७; ३, ४,
१६×४; -यानाम् तत्रा १८,
४; -सौ मीम् १०, ४, ५६.
व्यपदेश-भेद- -दात् मीम् २,
१, १७.
व्यपदेशिन्- > षि-वत् >
व्-वचन- -भग् पावा १, १, २१;
-नात् पावा ३, १, ९१; ६, १, १.
व्य(नि-अ)प-पूर्व- -रिणि त्रामा १,
९९.
व्य(नि-अ)प √ रिफ् > व्यप-रिफत्-
-कन्तो^६ आपथौ १२, १२, ७;
वैथौ १५, २८ : ७.
व्य(नि-अ)प √ वृज् > व्यप-वृगे- -मीम्
मीम् २, ४, ४.
व्यपवर्णि- > षि-वत्- -वत्
मीम् ६, ३, ५.
व्य(नि-अ)प √ स्फुर् > व्यप-स्फुरण-
> ण-शुवि- -जेः काप्रौ ५, ३,
३०.
व्यपाच- -आम्याम् वीम् ८२, १९;
-वै मीम् ८२, ६.

व्य(नि-अ)पा(प-आ) √ दा > व्यपा-
दान- -न्म् निम् ७, ७ : १२.
व्य(नि-अ)पा(प-आ) √ ध्रि > व्यपा-
ध्व- -या मीम् ६, ४, १३.
व्य(नि-अ)पे(प √ द्) व्यपेयात् वाप
१२, १८.
व्यपे(प-द्)त- -ताः निम् २, ९;
२८; -तादि वीथौ १३, १ : ११.
व्यपेत-व- -वत् पावा ८, ४, २.
व्यपेत-रोप-शम-शोक-हर्ष-
भी- -भोः माग्नि १२, ६.
व्यपेका(त-अ)र्थ- -र्थम् पावा ७,
४, ६७.
व्यपेत- -ताताम् पावा ६, ४, ९३.
व्य(नि-अ)पे(प √ ई)श् > व्यपे(प-ई)
क्षा- -अथा वृदं ५, २४.
व्यपोढन्ति व्य ६८, १, ३२.
व्य(नि-अ)पो(प √ ऊ)ह्, व्यपोहति
वीथौ ७, ६ : १७; ८, १ : २१;
वाथौ ३, ३, ४६; द्विथौ;
व्यपोहन्ते वीथौ ७, ६ : १०-
१२; व्यपोहन्ति त्रामौ ५, १२,
७; व्यपोहध्वम् वीथौ १७,
४० : २२१.
व्यपोहवन्ति वीथौ २७, ४ : ४.
व्यपो(प-ऊ)हितम् वृदे ६, १४०.
व्यपो(प-ऊ)ह् आनिष्ठ २, ७, १० :
१५; वैष ६, १ : १५; वैष २,
१५, ४.
व्य(नि-अ)पि √ च्छ्, व्यपिचरेत्
दाथौ ७, १, १२; लाप्रौ २, १,
११.
व्यपि-आत्- -रेषु शंष २६२.
व्यपिचार-वद्- -वन्तः वीष १,
११, ३७.

व्यपि-चारिन्- -रिणि द्विष १, ५,
११८.
व्यपिचारिणी- -गीनाम् वाप
२१, १४.
व्य(नि-अ)मि √ मृश्, व्यमिमुशेत्
वीथौ २०, ८ : ३२; ३५; २२,
११ : ४; वप १, ३६, ४.
व्यभि-नर्त- -र्तः वीथौ २०, ८ :
३४; ३५; -र्तौ वीथौ २०, ८ :
३२.
व्यभि-सृष्ट्य वीथौ २०, ५ : ३०;
२६, ५ : ११.
व्यभि-सृष्ट- -ष्टानाम् वीथौ २५,
१६ : १०; २६, ६ : ९;
व्य(नि-अ)म् > व्या (नि-आ)म-
वाडनो २, २, २४०; -मः वीथु
१ : ८; -मम् माप्रौ ६, १, ५, १.
व्याप्त-प्रमाण- -न्म् वत्र १,
७, ७.
व्याप्त-मात्र- -त्रम् प्राप ७,
१, १०; धत् २२, ७, ९; -त्रौ
वीथु ५ : १५.
व्याप्तमात्री- -नीम् दाथौ
२, ६, १; वीथौ ९, १ : २; द्विथौ
११, १, ११.
व्ये(नि-ए)माव- -मग् पावा ६, ४,
१२०.
व्यमिमितांन्यतः कपं २ : ४५.
व्ययस् पावा. भ्वा. उभ. गतौ; शुरा.
उभ. वितस्सुत्पणे, वृच्यवस्त्र
आपथौ ७, ६, ४; भाप्रौ ७, ९,
२; द्विथौ ६, २, १५.
व्य(नि-अ)य- -वी(वि √ द्)द.
व्यय(नि-अ)र्ष- -र्षोः लाप्रौ १०,
१८, १३; -र्षौ लाप्रौ १३, २९,

a) वत्. > वत्. b) पृ २१९८ c द्र.। c) पाठे. पृ २२२७ d द्र.। d) अपाव- इति शेषः
(उ. ४^{थं} लृप्, वंश्रुः टि. वः। = सौ ७, २१-२४ वृच्यवस्त्र। e) वैष १ द.। f) वत्.। g) वित्र.
(नेतृपत्र-वृद-)। हम्. उप. = उल-।

२८, काशौ २४, ६, ३१, ३४,
आपशौ २३, १३, १२, द्विशौ
१८, ४, ४८
व्य(वि-अ)र्थ, धाँ- -र्थं मीस् १०,
२, ९, ६, ५०, -धाँ मीस् ३, ३,
३०, -र्था आपघ २, २६, १७,
द्वि २, ५, २१२, -र्थे मीस् १,
२, २८, -र्थेषु पावा १ २, ६४^३
मर्थं ख- -त्वात् मीस् ७, ३, ११
व्य(वि-अ)र्द्धं धर्द्धयति या ९, २५,
र्द्धि .. धर्द्धयत् द्विशौ १२, ६, ६,
या ९, २५^४
२ध्व(वि-अ)र्णं- -र्णयत्- पा ७, २,
२४
व्य(वि-अ)र्धुक्- व्यु(वि-अ)र्ध्व द
व्य(वि-अ)र्लीक- पाठ ४, २५
व्य(वि-अ)र्कशा, ख^०, शार्^०- पाप
७, ३, ४^०, -शा कौष्ट ५, ५,
५^१
वैयल्कश ख^०- पा ७ ३, ४
व्य(वि-अ)र्ष, ष्ववेते^३ वैशौ २०, ३
११
व्य(वि-अ)र्ष्व/श्व ग्रह, न्यवगृह्णाति
माशौ १, २, २, २९,
व्यव माहम् शशौ २८, ९, ६
व्यव ग्रान- व्य(वि-अ)र्ष्व/ह्व द
व्य(वि-अ)र्ष्व/च्छद्, व्यवच्छादयन्ति
द्विशौ ५, ४, ८९
व्य(वि-अ)र्ष्व/च्छिद्, व्यवच्छिन्दन्ति
बोधौ ५, १५ २४, ८, २०
२७xx, व्यवच्छिन्द्यात् वायुशौ
४, १७ ३^३, ५, ६
व्यवच्छेदीय वाशौ २५ १३,
२५^१, न्यवच्छिद्यया शशौ २,
१२, १०, व्यवच्छेदात् बोधौ ६,

६ ८, व्यवच्छेदी आशिश्र १,
६, १: १, व्यवच्छिन्ति शशौ
२, १२, ११.
व्यवच्छिद्येत वैशौ १२, १२ ३
व्यवच्छिन्न- -श्च बोधौ २८, ९
३, वैशौ २१, १ ३, -श्चे बोधौ
२५, ११ ३.
व्यवच्छेद- -दात् शशौ ३, ३, १४
व्यव-जिहीर्षमाण- व्यव/ह्व द
व्य(वि-अ)र्ष्व/दो (अवलगादने)
व्यव दाय कौस् ६६, ३, ६८, ३४
व्य(वि-अ)र्ष्व/धा, व्यवदधाति बोधौ
१५, १९ १७, १६, ३२. १२,
३३ ६xx
व्यवधीयेत् शप १ ३४
व्यव धान- न. श्रुत ४, ५, १,
-नात् शशौ १२, ४, १७
व्यव धाप शशौ ६, ३, ३.
व्यव हित, वा -तम् आपशौ १३,
१३, १०, -ता शशौ ५, १, १,
९, पा १, ४, ८२, -तानाम् पावा
१, २, ३९, -ते पावा १, १, ७,
-तेषु माशौ ५, २, १२, ३०^०
व्यवहित-त्व- -त्वात् पावा ३
१, ११, ४, १, १४७, ७, ३, ४४
व्यवहित निवृत्त्य(वि-अ)र्ष-
-र्थम् पावा ३ १, ४०
व्य(वि-अ)र्ष्व/धृ, व्यवधारयति
आपशौ १, २१, ६, माशौ १, २३,
६, वाशौ १, २, ४, ६५, द्विशौ १,
५, ८६
व्य(वि-अ)र्ष्व/न- -ने वा ११, ४०, १३,
१०^३, १४, १६^६
व्य(वि-अ)र्ष्व/नी, व्यवनयते माशौ
२, ३, ८, ७, ४, २, १५, ६, ५

व्यवनयते द्विशौ ९, २, २०
व्यव नयत्- -नत् आपशौ ११, ६१
व्यव नीय आपशौ १२, २५, ८xx,
बोधौ
व्यव-यत्- -न्ये द
व्य(वि-अ)र्ष्व/लिख्, व्यवलिखति
वाशौ १, ६, १, १९, व्यवलिखत्
आपशु १५, १२, बोधु १६ १९
व्यव लिख्य आपशु ७, ८, १३, १४,
१८, ७, बोधु
व्य(वि-अ)र्ष्व/शद् > त, व्यवशात
यति आपशौ १८ ८, ११
द्विशौ १३, ३, १३
व्यव शातय(त् >)न्ती- -न्ती वैशौ
१२, १ ८
व्य(वि-अ)र्ष्व/शाम् > व्यवशात-
-न्त्ये आपशौ ६, ९, २,
व्यव-सान-, -साय-, -शित- -श्च
(वि-अ)र्ष्व/सो द
व्यवशतीरयन्ते शप २ ४४
व्य(वि-अ)र्ष्व/सु > व्यवशात- -त्वा
आपशौ १८ १६, १४^१.
व्य(वि-अ)र्ष्व/सु > व्यवशात
आपशौ १३, १४, १३, वैशौ १६
१८ ६, द्विशौ ९, ४, २४
व्य(वि-अ)र्ष्व/सो, व्यवसेत्^३ माशौ ५,
२, ८, २०
व्यवस्यन्ति वृदे १, ८९ शप
१८, ५७, व्यवसेत् वैशौ १३,
८ ५, वृदे १, ८६.
न्यवसायपात् बोधौ ५, १९
१६, शशौ १३, २, १३, शप ५
३, ५
व्यव-सान- -न्त्ये माशौ २, ४, २, १५
व्यव-साय- -न्यत् धं ११६ १९

a) वा । b) वै १२ । c) मर्थे । व्यस्त्वम्- दृति पापम् । d) = [प्रहरणा] पठ ।
e) वृ १६७७ ७ द । हया शशौ ३, २, ६, ४७ नानावेषेषु इति पाठे । f) = व्योमन् । वा (दृ १४) ।
g) वाचि मोतो लोप तस (पा ७, ३, ७१) । न्येत् > नैय यति इति वा ।

व्यव-सित- > प्त-पाठ- भाव पावा
१,३,९.

व्यवसिमा(त-त्र)न्य-स्व- स्वात्
पावा १,३,३.

व्यव-स्त>स्ता- स्तायाम्
भाओ ४,९,५.

व्यव-स्यत्- स्यत् भाओ १,४,२२,
-स्यन्तः निम् ८,१ : १९; ऋप्रा
१५,२०.

व्य(वि-अ)व >स्तुम्, व्यवसोनेव
लाओ ७,६,२५; निम् ६,७ : ४,
५ : ७.

व्य(वि-अ)व >स्तु (आच्छादने),
व्यवतृणाति आपृ ५,२३.

व्य(वि-अ)व >स्था, व्यवविष्ठते शाओ
१,१,५; वा १४, १०; व्यववि-
ष्ठे वैओ ३, १ : ४; हिओ १,
१, ६८; व्यवविष्ठन्ति शाओ १,
३, ८; आपओ २४, २, २९;
व्यवविष्ठेव गीम् २,४,२५; ३१;
३,६,३४; ४,३, ८; व्यवविष्ठेव
माओ १, १, १, ८; मोम् ३, ४,
२६; ८, ३; ७, १, ३; ९, २, ४७;
४८.

व्यवस्मापयति वैओ १३, ५ :
१४.

व्यव-स्या- स्या काओ १, ३, ४;
वौओ २४, १ : १२; मोम्;
-स्याः भाओ ७, १, १; -स्याभिः
काओ १६, ७, १०; -स्याम्
काओ १०, ५, १८; -स्यायाम्
पा १, १, ३४; पावा १, १, २६.

व्यवस्था(त्या-अ)र्थे- अर्थम् वावा
७,३,९२.

व्यव-स्थापन- नम् विव ३, ३.

व्यव-स्थित,ता- ता- सुदे २, ३५;

६,१११; -तम् आग्रि २, ४,
१० : ६; श्य ७१, १७, १०;
सुदे ६,११२; -ता अय ३,४,७;
विष २५,१७; -ताः अय ६१,
१,३.

व्यव-स्यत्- व्यव >सौ द्र.

व्य(वि-अ)व >स्तु, व्यवसवन्ति
आपओ १८,१६,७; हिओ १३,
५,३५.

व्य(वि-अ)व >हन् >व्यव-ज्ञान- नः
वौओ १७,५४ : ३; -नम् वौओ
१७,५४ : २.

व्यव-हित- व्यव >वा द.

व्य(वि-अ)व >ह्य, व्यवहरति वा ४,४,
७२; व्यवहरेत आपृ १, २०,
११; १६; विव १, ६, २५; १०;
व्यवहरेव वौओ २४, १२ : ३;
२५, ४ : ३; व्यवहरेषुः आपृ १,
१९, ९; शांष्ट २, १, १३; पाण २,
५, ४०.

व्यव-विहीर्यमाण- न्यः भाण २,
१६ : ६.

व्यव-हरण- नम् वौव २, १, ४१.

व्यव-हार- पाप ५, ४, ३४; ७, ३, ७;

-तः वौव १, १, १०; विव १६,
१५; गौष ११, २१; -रत्
वाधुओ ३, १० : ६^३; ४, ३३ :
२३; २४; -ताः वाप १६, १;
-रान् विव ३, ७२; -रे अय
६२, ५, ३; वाध १६, १५; आपृ
२, १६, १७; विव २, ५, १७;
-रेषु अय ३६, १३, १.

व्यापहारिक- पा ५, ४, ३४;
७, ३, ७; -कम् वौव १, १६, १५;
हाण १, २४, १.

व्यावहारिकी- ङी या

१३, १^१.

व्यवहार-दर्शन- ने विव ३,
७३.

व्यवहार-आपण- नम् वौव २,
२, ३७; गौष १०, ४५.

व्यवहार-प्राप्त- लेन गौष २, ४१.

व्यवहार-संकर- नम् अय ७२,
४, २.

व्यवहार(र-अ)मिदास्त- स्तः
विष १०, ११; ११, १२; १२, ८;
१३, ७.

व्यवहारा(र-अ)र्थ- नम् वा १,
२.

व्यव-हार्य- न्यः शेष ३९०; -वाः
काओ २२, ४, ३०; पाण २, ५,
४३.

व्यव-हृष्य वा २, २३.

व्य(वि-अ)वा(व >अ)न् (आच्छेदे),

व्यवानेव आपओ १२, ८१७.

व्यवान्वाव वाओ ३, २, ५, १३^१.

व्यवा(व-अ)नन्- नन्तौ माओ ५,
२, ८, १९.

व्यवाय- न्यिन्- न्ये द.

व्य(वि-अ)वा(व >अ)स् (विपक्षे),

व्यवास्त्ये वौओ १६, २१ : १;

माओ २, २, २, ३१; हिओ ७, ५,
२६.

व्य(वि-अ)वे(व >ए), व्यवति वैओ १,

१२ : १६; विओ ३, ४, २०;

व्यवपत्ति काओ ७, १०, ३; निम्

१, १३ : १; व्यववाव काओ ३,

१, १९, १०, १०; शाओ; व्यवेषुः

आपओ २, ११, २; वौओ २६,

२४ : १५; विओ १५, ३, २९;

आण २, १, १३; वा ६, ११.

व्यवविप्यन्^० निम् १०, ८, १९.

a) वा. वनने इतिरिति भाष्यम् । क्वचित् लोपे हम् । b) व्यवेष्यन् इति संस्कृतुः टि. (ह. यत्र,

व्यव-वत्- -यत् वीथी ५, ८ ६
 व्यवा(व-अ)य- -यः लाथी १०,
 ११, ८, निस् ४, २ १४, १६,
 १८, २१, ऋप्रा १४, ५८^१, मीस्
 ५, २, १८, -यात् मीस् २, १,
 ४७, ३, १, २०, -ये आथी ३,
 १०, १३, वाप^२ १, ८, ९, औन
 ३, १, ३, मीस् १०, ६, ३१, -येषु
 तेषा १३, १५
 व्यवाय- -ये वा ६, १, १३ ६×५,
 पावा १, ३, ६०×५.
 व्यवा(व-आ)विस्- -यि ऋप्रा १०,
 ३, ११, १३, -यिन वा ६, २,
 १६६
 व्यवे(व-इ)त- -त शाथी २, १५, ६,
 तेषा १३, ७, भावि ६२, -उम्
 वीथी २२, ८ ३६, ऋप्रा ५,
 ४३, १०, ३, ११, १५, ऋत ५,
 ६, १०, -ता वीथी २३, ९
 २७, -ते आथी ४, १, २६,
 आपथी २१, ३, ४, -तेषु अप
 १ ३३
 व्यवेत प्रतिषेध- -य. पावा २,
 २, १८
 व्यवे(व-इ)व्य वीथी २०, ५ ११,
 १४, २० १२, ऋप्राय १, ५
 व्य(वि-अ)यो(व/उ)श्च, व्ययोक्षति
 माथी ६, २, ४, १९, वाथी २, ७,
 ३, २३
 व्ययो(व-उ)क्षण- > णा(ण अ)
 न्त^३ -न्तम् वाथी २, २, ३, २५
 व्ययो(व-उ)क्ष्य आपथी १६, २१, ३,

१७, १३, ६
 व्य(वि/अ)श्च (व्याप्तौ)^१, वृष्यसेम^२
 आपथी १४, १६, १, १२, ३,
 ७^३, वाथी ३, २, ७, ८०, द्विथी
 १३, ८, ३३^४, १५, ५, १, माथ
 १, १, २१, ऋप्राय ६ १
 व्यश्नुते शाथी १६, १, १, आपथी
 २०, २४, ३, वापूथी ४, १९^५.
 १९, वि अश्नोति ऋप्रा ५
 १८^६, व्यश्नुवाते या १२, १,
 व्यश्नवत् कौस्तु^७ ५, १, २,
 व्यश्नुवत् आमिथ ३, २, ७
 ७^८, व्यश्नुतम्^८ आपथ १, ८,
 ८, ११, १०, व्यश्नुध्वम् वापूथी
 ४, १९, १०, वृष्यश्नवै^९ पाथ ३,
 २, २, ३, ६, व्याश्नुव थाथी
 १६, १, १, व्याश्नुवत् वापूथी ४,
 १९^{१०} १६, १८, २६: १०,
 २६^{११} २, व्यश्नुवीय शाथी १६,
 १, १, द्विथी १४, १, २, व्यश्नुवी
 मदि वापूथी ४, १९ ८.
 वृष्यानसे आपथी ५, १६, १^{१२},
 वीथी २, १७ ४६^{१३}, भाथी ५,
 १, ९, वैथी १, १३ १४^{१४}, द्विथी
 ३, ४, ३९^{१५}, ६ ५, १४^{१६}, अप
 ४, २, वृष्यानश्च आपथी ४,
 ४, ४, भाथी ४, ५, ५, वाथी १,
 १, २, १६, द्विथी ६, १, ५१
 व्य(वि अ)माथ^{१७}- न वाथी २, २,
 ४, ५^{१८}
 वैषयान^{१९}- अ वाथी २, २,
 ४, ५^{१९}

व्य(वि-अ)विपवत्- -व्यर् लथी
 १०, ६, १
 व्य(वि-अ)ष्टि^{२०}- धी आथी १०,
 ६, १^{२१}, वाथी १६ १, १^{२२}
 व्य(वि अ)श्रु^{२३}-> व्यश्रु गु(स>)
 ली- ली वीथ २, १, १९
 व्य(वि-अ)श्व^{२४}- -या ऋप्रा २, ६, २६,
 शुभ ३, ९०
 वेदथ^{२५}- -अ ऋप्रा २, ८, २६,
 साथ १, १०६, ११४, १९१,
 ३९६, -अथ ऋप्रा २, ३, १०^{२६},
 लाथी ३, ६, ३०, ७, ३, १
 व्यश्व-वत् आथी ७, ८, २
 व्य(वि-अ)श्व-सारथ्या^{२७} (वि आ)
 युध^{२८}-> ^{२७} ह्राण्ठि विपकी
 णकेत-पराठमुसोपविष्ट-नप
 वृक्षास्व-दूतागोमहणार्दि-
 -दिभ्य गीव १०, १७
 व्य(वि-अ)ष्ट(क>)क^{२९}- का आथ
 २१, १०^{३०}, -का लाथी ९ ३,
 ८, -काम् आपथी १८ २३,
 १४, लाथी २, ३, ८
 व्य(वि/अ)स्(क्षणो)व्यस्वते वापूथी
 ४, २७ १३-१५, व्यस्वति
 आपथी ११, ८, ४, व्यस्वति
 आथी १४, ४९, व्यस्वा आथी
 ५, ३, २२^{३१}, व्यस्वतु आथी २,
 १०, १८^{३२}, वृष्यस्वताम्^{३३} आथी
 ७, १६, ७, वीथी १, ११ १६,
 भाथी ३, ५, ११, वि(आस्वत्)
 अप ४६, ५, २^{३४}
 व्यास्व शाथी १२ १६, ११

a) = वर्षादीन-विशेष-। b) = व्यभिचार-। c) वस । d) वा १२, १८ पराण्ड द । e) = एव
 वा १, ८९, ८ प्रम् । मा २५, २१ प्रम् ह व्यसेमदि इति पाठे । f) पाठे वैष १ वृष्यानुतम् १०, ८५ ४२ डि
 द । g) वैष १ द । h) पाठे वैष १ किन्दिने मा ९, २० डि द । i) उत्तरेषु सधिरार्ण (द पाठे) ।
 j) पाठे वैष १ पैतनिनाय मा ९, २० डि द । k) प्युष्टी इति पाठ ३ यति शोच (द शांती) । l) = म
 रिण । वस । m) = ताम विशेष-। प्र विशेष । n) वस > दस । o) = वृष्य-वश- इति मन्त्रम् ।
 p) पाठे वैष २, २३२ वृष्यस्वताम् तेषा २, ५, ३, ३ डि द । q) सप्त। वि ३, १६, ४ व्यस्वताम् इति पाठे ।

व्य(वि-अ)सन- नम् अप ६४, २,
९; ७०^१, ९, ३; -नस्य अप ६८,
५, १३; -ने वीथ ४, ३, ९; विथ
३, ४१; ६८, ५; पावा ३, १, २०.
व्य(वि-अ)स्त, स्ता- -स्तम् वृदे २,
१२३; -स्तया वीथ २, १०, १४;
-स्ता वृदे ३, १४; -स्ता:
वीथी २७, ११: २; वीथ
४, ४, ७; श्रम १, २, ९;
-स्तानाम् वृदे २, १२४; -स्ताम्
वैथ २, ६: १९; वैथ २, २, ६;
७, ४; -स्ते: वृदे ३, ६०.
व्यस्त-सुक्^१- -सु: हिथी १२,
८, ३; श्राण्ठ १५, २; १८, १;
वीथ १०: १; हिथु ५-१२, २.
व्यस्त-शिक्ष-पर(श)>शा^१-
-शाम् वीथी १०, १४: ९.
व्यस्त-समस्त- -स्तानाम् वृदे
८, १२४.
व्य(वि-अ)स्य वैथी ३, ६: १४;
४, ८: १४××; आपमं १, १२,
८^१; आमिथ १, ५, ५: १४^१.
व्य(वि-अ)स्यत्- -स्यत् कुथ २,
५३^१.
व्यस्यन्ती- -न्ती आपमं १, ६,
५; काल २५, ४०^१.
व्य(वि-अ)स्यमा(न)>ना- -नाया:
वाधुथी ३, १५: ४.
व्या(वि-आ)स(वप्रा.)- पाग ४, ४,
१०^१; -स: काल ३, ४; कप्रा
१४, ११^१; चय्यु ४: ११^१; -सम्
हिथु ५, २४; ३०; आमिथ २,
६, ३: ४०^१; वीथ २, ५, २७^१; -से

धीन ३, ७२६.
वैयासकि- पावा ४, १, १७.
व्यास-वीन^१- -ने श्रमा १४, ३.
व्यासिक- पा ४, ४, १०.
व्या(वि-आ)/काह्त्स्, व्याकाह्त्स्
कैथीका १७२.
व्या(वि-आ)/कुल् > व्याकुल, खा^१-
-सम् वाधि १, ३०; नाधि १, ३,
१२; -सा: अप ६४, ७, ९.
व्या-कुलित- (>व्याकुलित्वि-
पा.) पाग ५, २, ८८.
व्या(वि-आ)/कु, व्याकरोति वाध २२,
१; व्याकरोमि वैताथी ६, २;
कैथी ७७, १०; ७२, १३.
व्याकरिष्यति या १, ५.
व्याकरण- पाग ४, ३, ७३; -गम्
हिथी २१, २, ३४; अप १, १५,
१; ४१, ६, ५; शंथ ११६: ३५;
आपथ २, ८, ११; हिथ २, १,
११३; चय्यु २: २३; २६;
शेथि ३५८; पावा १४; -अस्य
या १, १५; -जे पापवा १०.
वैयाकरण- पा ४, ३, ७३;
-गा: या ९, ५, १३, ९; -गानाम्
या १, १२.
वैयाकरण(कु-आ)/वा-
-ख्यायाम् पा ६, ३, ७.
व्याकरण-प्रसिद्धि- -दि: थाधि
७, २.
व्याकरण-समापन^१- (>
थीथ- पा.) पाग ५, १, १११.
व्या-कृत(>वैयाकृत-पा.) पाग ५,
४, ३८.

व्या-कृत्य काथी ४, २, ९.
व्यासदि अप ४८, २८.
व्या(वि-आ)/ख्या, व्याख्यास्याम:
वाथी १, १, ३; २, १७, १८××;
काथी.
व्याख्या- >ख्या-स्तर^१- -रेण
आथी ८, १३, ६.
व्याख्यात, ता- -त: काथी ३, ११,
१; ६, १, १××; आपथी; -तम्
आथी १२, १-२, १; काथी;
हिथ २, १३, ३^१; -ता काथी
८, १२, १; आपथी १३, ४,
७××; माथी; वैथी १८, १:
१५^१; -ता: आपथी ३, १७,
१२; १५, १९, १××; वीथी;
-तात् आमिथ २, ११, १: १३;
-तानि आपथी २२, १८, ७;
वीथी २८, ४: ६; माथी;
-ते काथी २४, १, २७; काथी
५, १, ५, ४३; वैथी; -तो
काथी १, १६, १; १४, ३, १५;
वैथी १२, १५: १०; काथी.
व्यायमात-तन्त्र^१- -त्रम् आमिथ
३, १, ३: ३७^१.
व्याख्यात-रूप^१- -य: हिथी ७,
८, ३६; १६, ५, ६.
व्याख्यातव्य- -व्य: या २, १.
व्याख्यातव्य-नामत्- -न्न: पा
४, ३, ६६; पावा ४, ३, ६६.
व्याख्यातुम् अप ७१, २, ४.
व्याख्यात- पाग ४, ३, ७३^१, -ने:
पा ४, ३, ६६; पावा १, ३, १०;
-नम् आथी ८, १३, ३४; अप

a) वस. । b) वस. > वस. । c) पाथि. पृ २००८ B द. । d) = महा-जाल- इति पागम. ।
e) = [स्थानम्-रूपयोः] अविवेक- [विषय-विशेष-] । f) = कृषि विधि- । g) = [प्रवरकाः] पर-वाड- ।
h) = कर्णोपविष्टौ-गयोः दस. । i) विप., नाप. (पदलोप-विशेष-) । j) वृ. पागम. । k) = मन्थन-
सर- इति भाष्यम् । l) सप. व्याख्यातम् <> व्याख्याततन्त्रम् इति पाथि. । m) *वला इति पाठः ।
यनि, शोध- ।

७०^१, ११, २; वेज्यो ४३; -ने
वीथी २०, ५; २४; २७; १८:
५; २३, १५: १; आशि ६,
१; पावा ४, ३, ६६^१.

वैयाख्यान- पा ४, ३, ७३.
व्याख्यान-शयना(न-आ)सन-
ख्यान-याजकादि-श्रीत- -ता पा
६, २, १५१.

व्या-न्याय आपथी १, १७, १०××;
वीथी.

व्या-स्वयेव- -वा: वाचुथी ४, १५:
११; -या: वाचुथी ४, ११४: ६.

व्याघ्रात्* आपथी ६, १९, ७.

व्या(वि-आ) ✓घ, व्याघरयति काथी
४, ४, १३; ६, ८, २०; आपथी;
व्याघारय आपथी १३, १४,
६१; व्याघारयेत् आपथी १३,
११, २; वीथी २०, २६: २२;
२२, ९: १८.

व्या-घर-> ष-वत् वीथी १४,
७: ३.

व्या-घारण- -मन् आपथी १३,
११, २; वीथी २५, १९: ३;
वीथी १६, ३: ७; -णान् माथी
६, २, ४, १०; -णान् आपथी
११, १४, ८^०; -णे वीथी २०,
२६: २१; २१, १८: २५; २२,
९: १७.

व्याघारण-मन्टि- -ति आपथी
७, ६, २.

व्याघारण-वद् काथी ८, ५, २;
१७, ६, ३.

व्याघारण-क्षेप- -येण आपथी
१३, १४, ८; वीथी २१, २३: १८.

व्याघारणा(ण-प्र)न्त- -न्ते
पाय ३, ८, १०.

व्याघारणा(ण-प्र)न्त,न्ता^०-
-न्तम् ^० वीथी १८, १६: २३;
हिथी १६, ६, ५४; -न्ताम्
आपथी १६, २०, १^०; १९, ११,
६; माथी ६, १, ६, ८; वाथी
२, १, ५, १७; हिथी २३, २, ६^०.

व्या-घारयत्- -यद् वीथी २०, २६:
२२.

व्या-घारयमाण- -ण: माथी ६, २,
६, ३०.

व्या-घारित,वा- -ता वीथी १७,
१७: ४; -तायाम् माथी ६,
२, ६, ३०; -तेषु हिथी ९, १,
२३.

व्या-घारि आपथी १३, १४, ६; १६,
२१, ४; २२, ८; १७, १३, ६; वीथी.

व्याघ्र^०- पाठ ५, ६३; पाठ २, १, ५६;
४, ३, १५२^१; पावा ३, १, १३७;
४, १, १७^१; कि ४०; -^०प्र:
आपथी १७, १, ८; २२, २८, १०;
१२; वीथी; -मम् काथी १९,
२, २९^१; आपथी १८, १५, ३१;
वीथी १८, १८: १२^१; माथी;
-प्रयो: माथी ५, २, ४, २८;
-प्रा: ष्य २०, २, २; ४०,
२, ३; -मे आपथी २२, २५,
२२^१; वीथी २, ५: १; ८:
१५; १८, ८: १७; २६, ३०:
१९; हिथी; -प्रेण वप्राय ५, ६;
-प्री वाथी ३, २, ७, १९; वीथ्य
४६, ४३^१; वम ६, १४०^१.
व्याघ्रि- -प्री वाप १८, १,

१७; शैथि १६४; पाति २८;
माथि ४, ७; याथि २, ७५; नाथि
२, ८, ३०.

वैयाघ्र^०- पा ४, ३, १५२; -प्र:
अज ८, ७^१; -प्रम् वेताथी ३६,
६; पाय ४१, १३; वीथ्य १७,
१२; -^०प्र आपथी २२, २८,
१२; वीथी १८, १६: ११;
हिथी २३, ४, ५०; ताथी २, २,
२२४; माथि २८.

वैयाघ्री^०- -प्रीम्याम्
वीथी १८, १९: ३; -^०वी वीथी
१८, १६: २; ११.

वैयाघ्र- पा ४, २, १२;
-प्र: आपथी २२, १२, ७^१.

वैयाघ्र-परिच्छद^०- -दा वीथी
१४, २३, २०^१.

वैयाघ्रकि- पावा ४, १, १७.

व्याघ्र-गण- -गै: विध ४३, १६.

व्याघ्र-वर्मन्- -र्म काथी १५, ५
१, २५; वाथी ३, ३, ४३; ४३;
-र्मणि आपथी १७, १९, १२०,
१९, १३; वीथी १९, ६: ११५;
१२, ६, ९; १३, ५, ३०.

व्याघ्रचर्म-देता- -ते काथी १५,
६, ३३; ७, १.

व्याघ्र-द(न्त->)गी^०- -ती वाप
५, १, ५.

व्याघ्र-देवता-> ष्य- -ष्यम् काप
४, ३.

व्याघ्र-वा(द->)द^०- पाठ ४, १,
१०५; -वाद् वम २, ६, १७.

वैयाघ्रव- पा ४, १, १०५;
-वा: वीथी १८, २६: ७; ११;

a) पाठ: १ वैयाघ्र इति घोषः (तु. पृ २१६८०) । b) = मन्त्र-विशेष- । c) वत. । d) वा.
क्रि. (तु. वेदा पृ २७८४) । e) परस्परं पाठे. । f) ष्मा इति पाठः । गि. घोषः । g) प्राणेषु = हिं-
जन्तु- । विशेषः दि. द. । h) वेप १ द. । i) तु. पाठम. । j) म्य. । k) विप. (उपावद-). । l) पाठे.
पृ १५१५ b द. । m) = घोषवि-विशेष- ।

लाभो ६, १, १७, अथ १, ३, १,
 -या बोधोप्र ४५ ३
 ध्यात्र-लौम- -मै बाधो ३, २, ७,
 १८^३
 ध्यात्र-लौमन्- -मभि बोधो १७,
 ३४. ११^३, -या माधो ५, २,
 ११, १६^३
 ध्यात्र-रूक-इयेना(न-आ)दि-
 -दिभि बोध ३, ३, ६
 ध्यात्र सिंहक- -का अथ ६७, ७, १
 ध्यात्र हल- -ते आधि ३, ११, ४
 ४४, बोधि ३, ७, २.
 ध्यात्रा(प्र-आ)दि- -दिषु अथ ११,
 १, १४, २, १५, ५, -दीनि
 अथ १, १, १९
 ध्यात्राविष्टद्विचेति^b बाधो ३, २, ७,
 ३१
 ध्या(वि-आ)✓घ्रा>ध्या-घ्राण- -कार
 या ३, १०
 ध्याद्भि- व्यङ्-इ
 ध्या(वि घ्रा)✓चञ्, ध्याचष्टे प्रापथो
 ६, ८, ७, १०, ३१, १०xx,
 बोधो, ध्याचक्षते लाधो १०, ७,
 १०, ध्याचक्ष्य आधो ११, ३
 १३, बोधो ६, १४ २६, माधो
 १२, ३, २१, माधो २, २, १,
 ४०, बोधो, ध्याचक्षीत आधो
 ८, १३, ६, आपथो १४, १३, ७,
 बोधो २, १९ ३^३x, माधो
 ध्याज- ध्य(वि✓अ)र्इ
 ध्याडल- -ल बोधोप्र २७ ३
 ध्याडि- -वड इ
 ध्या(वि-आ)✓दा(दाने)>ध्या ज-
 -त्तर् हिधो १४, ४, २८, -ते।

अप्राय २, १^३
 ध्या-दाय कौस् ४८, ४०^३, या ३,
 १८, पावा ३, ४, २१
 ध्यादाय-स्वापिन्- -यो सु २३,
 ६
 ध्या(वि-आ) ✓दिङ्, ध्यादिरति
 काधो २२, ५, १५, आपथो ३, १,
 ३, २२, ७, १०, वैधो, ध्यादिरिषेव
 माधो ३, ३, २, लाधो ८, ७, ५
 ध्या दिश्य माधो ३, ३, ५
 ध्या-दिष्ट- -इत्य वैधो ७, ७ ६
 ध्या देश- -शाव् मौस् ३, ४, ५१,
 -शाव् हिधो ६, ३, ५
 ध्या-देशन- -शाव् हिधो ६, ४, ३९
 ध्याध-,-'त्ता- ✓विष्(ताडने)
 इ
 ध्या(वि घ्रा)✓घ्रा, ध्यादधने शाधो
 ८, ८, ६
 ध्या हित- > ष्त-प्रापथोयो(व-उ)
 वृषधीर्वा- -या निष् ९, ९
 १८
 ध्याधि^c- पाग ५, २, ३६, -अथ बोधो
 २९, ८ १, वीर ३, ५, ८, वैर
 ४, १४ १६, अथ ७१, १०, ४,
 ११, ५, आउयो ११, २, -धि
 कौस् २६, ५, अथ, -धिवा अथ
 ५७, २, ६, -धिमि अथ ३१,
 १, १, विध ५१, ७३, -विष्
 अथ ५९, १, १५ -धीव् अथ
 ६३, ३, ५, ७१, ८, १ -धीनाम्
 अथ ६८ ५, १२, शप ४, -धो
 कांय ५, ६, १
 ध्याधित, धा- वा ५, २, ३६, -व
 कौस् ४, १, ५, वाप ६, ६, अथ

३३६, -हम् कौस् २, २ १०,
 कौस् २७, १०, -उस्य काधो
 १५, १, २२^३, आर १, २३, २०,
 ३, ६, ३, असा १७, ५, सुवप
 ८३ २, -शाव् शां २, २, १५,
 बोध २, ७, १९, -शाव् वाप १७,
 ५७, विध २४, १२
 ध्याधित-पणितो(त-उ)म्मस प्र-
 हीण प्रप्यस्त- स्तेषु शप ३०३
 ध्याधित पणितो(त-उ)म्मसा-
 (त ङ)भिश्चस्त-निन्दित प्रदीन-
 प्रप्यस्त 'सप्रसारण- -अन् अथ
 ३, १, १२
 ध्याधि दुर्मिज्ञा(सु-२आ)दा- -धै
 वैर ६, ७. १३
 ध्याधि निग्रह- हम् अथ ३६,
 १९, १
 ध्याधि प्रकोपन- -ना अथ ५८,
 १, ९
 ध्याधि श्राव^d- -ये शाधो ३, ४,
 ८
 ध्याधि बाहुल्य- -स्वाव् वैध १, ९,
 १४
 ध्याधि नय- यम् अथ ७०^३, ७,
 ७, ७१, ९, ३
 ध्याधि मत्स्य यत्- -रेषु पावा ३,
 ३, १७
 ध्याधि-मरको(क-उ)वसृष्ट- -ष्टे
 विध ९, २९
 ध्याधि सु-सु-मद- -यम् अथ ५९,
 १, ५
 ध्याधि ल्ल(ल>)दा- -ला अथ
 ५९, १, ६
 ✓ध्याधीर्वा, ध्याधीधीत वाध २३,

a) परस्पर पाठो । b) ध्याप्रचर्म, ध्विष्टयति इति अल्कं इति शेष । c) = श्रुति विराप ।
 d) धा क्षेत्रयो इति (इ दासि, B [इ दा] च) । e) = रामस्य विशेष । उस । f) विप (अहीन) ।
 वस > वस । g) वैष इ इ । h) इ वीत । ध्यादितस्य इति अन्त्यु । i) अर्थ १ । शप शप ३०३
 सप्रसारण- इति । j) वस > वस । k) वप = प्राय- । l) वप्य प्र उस (अ ३, १, १८) ।
 वैष-प्र १८

१; वीध २, १, २५^a.
 व्यास्तु(धि-ठ)पह(त>)वा- -वा
 शुषप ८८:६.
 व्याधिघात^०- कि २.
 ?व्याध्मस्युचि निस् २,८: ३०.
 व्यान- व्य (वि/अ)न् द.
 व्या(वि-आ)/नह् (व्यासी)>
 पृथ्या-नसि^०- -सि:० अथ ४८,
 ६६; निष ३,१.
 व्या(वि-आ)/नी, व्यानयति काश्री
 १५, ५,६; आपश्री ९, १६, ९;
 १२,६,१; १८, १३,२१; वीथी;
 व्यानयन्ति काश्री २,३,१०.
 व्या-नीय आपश्री १३, १७,९.
 व्या(वि/आ)प्, व्याप्नोति वाधुश्री ३,
 २१: ८; व्याप्नुवान् निस् ४,
 ८: ३७; व्याप्नोत् वाधुश्री ३,
 २१:२; व्याप्नुवन् वाधुश्री ३,
 २१:५.
 व्याधि अथ ४८,२१.
 वी(वि-ई)पस्य- -पस्यन् निस् ६,११:
 ३६.
 वी(वि-ई)प्ता- -प्ताया: निस् ७,
 ५: ६; पावा ८,१,४; -प्तायाम्
 शौच ४,१९; पा ५,४, १; ४३;
 पावा ८,१,४.
 वीप्ता(प्ता-अ)धिकार- -रात्
 पावा ८,१,९.
 वीप्ता(प्ता-अ)र्थ- -र्थ: पावा
 ८,१,४.
 व्या(वि-आ)पन->पन-कर्मन्^०-
 -मंगाम् या १४,१३^a.
 व्यापनोप- -यम् या ५,१३.
 व्या(वि-आ)विन्- -विन: या ५,
 ११.
 व्याधित्व- -न्यात् काश्री १२,

१०,२.
 व्या(वि-आ)स,सां- -सम् अथ ३३,
 २,१; वृदे १,१६; या १४, ३१^a;
 -सा या १४,३१.
 व्या(वि-आ)सि- -सि: वाधुश्री ४,
 १६:५; ६; -सी: वाधुश्री ३,
 २१:२; ५; ८; -प्यै हिश्री ३,
 ७,६१^a.
 व्यासि-कर्मन्^०- -मंग: वृदे २,
 ६६; -मंगाम् या १४, १२;
 -मंगिण: निष २, १८; या ३,
 १०.
 व्यासि-मत्-त्व- -स्वात् वृदे १,
 १८; या १,२.
 व्या(वि-आ)पृ- -सा या १०,२६.
 व्या(वि-आ)प्य वृदे २,३२.
 व्या(वि-आ)प्यमान->प्या(न-आ)
 सेध्यमान- -नयो: पा ३,४,५६.
 व्या(वि-आ)/पद्, व्यापयन्ते अथ
 ७१,७,६; व्यापरोत् आपश्री ९,
 १५, १०; १२; भाश्री ९, १७,
 १२; हिश्री १५,४,३०;३२; वीथी;
 व्यापरोत् अत्राय २,१^a.
 व्या-यति- -यि: वीथी २७, ८:
 ७; मप्रा ५,२; -यित्-वीथी २७,
 ८: १; -यी आश्री ३,१०,१९;
 पाथ १,१०,१.
 व्या-यथ,था- -सा मप्रा ४, ३५; ५,
 ३१; -यम् आपश्री २,१५,१६;
 १४,३०,५; वीथी २१, १७: १;
 हिश्री; -थया वीथी १७,५०:१२;
 -यस्य मीत् ६, ५, ४८; -सायि
 आश्री ३,१०,२०.
 व्या-यादन- -ने काथ २७३: १^a.
 व्या(वि-आ)/पृ>व्या-पृ(त>)दा-
 -दायाम् आपश्री २४,१,२६.

व्या(वि-आ) /भाप्>व्या-भावक-
 पा ३,२,१४६.
 व्या(वि-आ)/अम्, व्यासमेद वीथि
 १,१३:९.
 व्याम- व्य(वि/अ)म् द.
 व्याय^०- (>वैदाय- पा.) पाप ४,३,
 ७३.
 व्या(वि-आ)/वच्छ,यम्, व्यावच्छे
 काश्री १३, ३, १; आपश्री २१,
 १९,९; वीथी १६,२२:७; वीथी
 ३,२,५,३८; हिश्री १६, ६,२६;
 व्यावच्छन्ते वीथी १४, ४:२१;
 व्यावच्छेताम् वीथी ११, ३,७;
 लाश्री ४,३,७.
 व्या-यंस्यमान- -नौ आपश्री २१,
 १८,४.
 व्या-याम(व्या)- -पाप ५,२,१३६;
 -म: आपश्री १५, ७; वीथी १:
 ९; हिश्री ५, ११; -मस्य काश्री
 ७,२६; आपश्री ७, ४; हिश्री २,
 ५८; -मेन वीथी १२: २.
 व्यायान-मात्र- -यम् आपश्री
 १६, १४, १; वीथी २, १, ४, ५;
 वीथी १८, १२: ७; हिश्री ११,
 ५,२५.
 व्यायाममाश्री- -नो आपश्री
 ७, ३; वीथी ७: ५; हिश्री २, ५०^a;
 -श्रीम् आपश्री १६, १, ७; ४;
 ७; १७, १७, ८; वीथी १३, १:
 ६; १२, ६: १११; हिश्री ११,
 १, ५२.
 व्यायाम-यत्- पा ५,२,१३६.
 व्यायाम-दाशा(दा-अ)म्यसन्-
 -यम् आपश्री ८,४.
 व्यायाम-यथ- -तेन वीथी ७: ९.
 व्यायामिन्- पा ५,२,१३६.

a) हेतु. भाष्यम् कर्मवतीरि लिखि < व्या/या इति । b) =शुभ-विशेष- । c) वै १ इ. ।
 d) =शु- । e) यथ. । f) उपलक्ष्य भा. दितायां श्रिता । g) कर्मो ध्यु. च ! ।

व्या(वि-आ)√यत्, व्यावावयति
 आपथी १५, ६, ५; १७; २१,
 १७, ७; माथी.
 व्या-व्यवित- -तानि आपथी १५,
 ६, १८; माथी ११, ६, १८;
 हिथी २४, २, १०।^२
 व्या√यम् प्रम्. व्या√यच्छ द.
 व्या, ङ^०ङ^० - पाग २, १, ५०; ४, ४,
 १०; -आ: अय ५७, ४, ४;
 ७१, १, ५; -लानाम् अय ६८,
 २, ४७.
 व्याड-इस्ति-यमु-मल-हत- -उ:
 वैष्ट ५, ११: ४.
 व्याल-दृत् -> 'वा(त-घ)दृष्टोप-
 वाक्यप्रसङ्ग^० -स्तानि गौष
 १७, ३६.
 व्याला(ल-आ)दि-मृग-हिंसा-
 कारिन्- -सी वैष ३, १३, २^०.
 व्यालिक- पा ४, ४, १०.
 व्यालक- -कस्य अय ५२, ६, ४.
 व्या(वि-आ)√लुल, व्यालोलयति वैष्ट
 ५, १: २३.
 व्या(वि-आ)√वष्, व्यावपति वौथी
 ८, १६: १८.
 व्या(वि-आ-अ)व√स्था, व्यावतिष्ठत
 वैष्ट ५, १: १८.
 व्यावहारिक- प्रष्ट. व्यन√इ द.
 व्या(वि-आ-अ)व√ह, व्यावहरेद् भाथी
 ३, १५, ७.
 व्यावीधवत् जुम् ३, १२: ३.
 व्या(वि-आ)√पृ (आच्छादने), व्यापृ-
 णोद् या १, ७६.
 व्या(वि-आ)√वृज् > व्या-वर्ग- -गैम्

लाथी ७, ६, ८^६; -गैम् लाथी ७,
 ७, ११^०.
 व्यावर्ग-वद् -यत्सु लाथी ७, ७,
 ३१.
 व्या(वि-आ)√युत्, व्यावर्तते वाधुथी ४,
 ७१: ३; ६; लाथी १०, १९,
 १४; निम् १०, ११: ८; आपय;
 वि...आवर्तते वौथी १८, २९:
 १३; वाधुथी ४, ९०: २८;
 वि...आवर्तते आपथी २३, ७,
 २; हिथी १८, ३, १; व्यावर्तयम्
 आपथी २४, ३, १७; काथीसं ४:
 ४; हिथी ३, ८, ६१^०; व्यावर्तय
 शीथी १, १, ८; माथी १, १, २,
 ४१; अत्राय ६, ६१^०; पञ्चार्थो-
 याम् आपथी १, २४, ५; २४, ३,
 १८; माथी १, २५, ७; वाथी.
 व्यावर्तयन्ति काथी १२, ३, १३;
 वौथी ११, ९, १०; व्यावर्तये-
 दम् वौथी १८, २८: २^०; वि...
 आववृष्टम् आप ४, ४, ११^०;
 पुंवि...आववर्तिद^० आश्रित ३,
 ७, १: १९; वौथि १, १७: १८.
 व्याविवृत्सेव वौथी १८, २९:
 १२.
 व्या-यतमान- -न्या: शोष्ट ६, ६, २.
 व्या-क्वित्विपत् -यद् निम् ७,
 ८: २४; ११: २४; १२: १७।^०;
 ८, १: ६; ३१.
 व्या-वृत् -वृत्त: आपथी १, ९, १०;
 वौथी ३, १०: २४; माथी १,
 ९, ३; हिथी २, ७, ३९।^०; भाष्ट
 २, १३: ७.

व्यावृत्-वाम- -म: आथी ३:
 १७, ७; वौथी १६, २९: १; ३१,
 १३; -मम् वाधुथी ४, ९०: २६.
 व्या-वृत् - -त: वौथी ३, १०:
 २४; -तम् वाधुथी ४, ९०:
 २८; -चानाम् अत्राय ६, ५;
 -त्ते आपथी १, ९, ११; माथी
 १, ९, ४; वाधुथी.
 व्या-वृत्ति- -त्तेय निम् ५, २: २९;
 ९, ११: १६; -चिम् आपथी
 २२, ५, १६; हिथी १७, १, ४७;
 -त्सा आश्रित १, ३, ९^०; -त्वे
 आपथी २१, १, ५^०; वौथी ६,
 २७: २०; ७, ४ ६^०×४; हिथी.
 व्यावृत्त्य(वि-आ)थे- -थेम् निम्
 १७, ६: ३; -थानि निम् ४,
 १२: १६; ५, २: २३.
 व्या-वृत्त आपथी १४, ११, १; १२,
 ६^०; हिथी १०, ६, ६^०; १^०; ५.
 व्या(वि-आ)√धि > व्या-अय- -ये
 पा ५, ४, ४८.
 व्यास- प्रम्. व्य(वि√अ)म्(धिपथे)द.
 व्या(वि-आ)√सद् > व्या-नाय
 आपथी २१, १२, ६; हिथी १६,
 ५, २.
 व्या(वि-आ)√सिन्, > व्या-सिप्य
 आथी ३, १०, २५; हिथी ९, ४,
 ५५.
 व्या(वि-आ)स्या, व्यास्यापयति आपथी
 १८, १४, १७; वौथी ९, ७: ५.
 व्या(वि√आ)ह, व्याह आपथी २१,
 ९, ७^०; व्याहु: वौथी १६, ६: ५.
 व्या(वि-आ)√हन्, व्याहते व्याथी

a) व्याति^० इति पाठः इ यनि. शोधः (दु. आपथी.) । b) वैष्ट पाठः । c) वैष्ट १ द. । d) पत्. >
 दत्त. । e) व्यावा^० इति O. । f) व्यप. । g) = पर्यन्- इति भाष्यम् । h) = पति- इति भाष्यम् ।
 i) पाठः इ न्यसर्ववित्- > -त्त इति शोधः । j) पाठः (दु. तैसा ६, १०, २) 'व्यवृत् इति शोधः (दु. सपा.
 ऋ १०, १८, ३) । k) व्यावर्तयि^० इति पाठः इ यनि. शोधः (दु. एवोत्तराणि स्पष्टानि) । l) 'त्तः इति
 पाठः इ यनि. शोधः (दु. आपथी. प्रष्ट.) ।

२२, ९, २, हिथ्री १६, ४, ४,
 व्याजन्ति वृदे ४, ९९, व्याहृत्यात्
 निम् २४ २८, ८, ७ ३१
 व्याहित- व्या(विआ)√वा द
 व्या(विआ)√ह, व्याहरति वीथी
 १८, १८ ९, ७, पा ४, ३, ५१,
 व्याहरन्ति आपथी २१, १२, ९,
 हिथ्री १६, ५, ३, व्याहरेत्
 आपथी ३, १८, ८, ५, २५, १२,
 १४, ८, ४, वीथी
 व्याजद्वा वृदे ४, १४, या
 १४, २
 व्याहारयेत् व्राथी ११, ३, २१,
 लाथी ४, ३, २०
 व्या हरत्- रत् विथ १४, ३
 व्या-हृत्य- -व्य विथ ३०,
 ३३
 व्या हार- -रे अप ७१, १, ९
 व्या हति, वी- तय वीथी ३, १७
 २, ९, १०×४, वाधुथी, वाट ३
 ४, ११, -ति वाथी १, ४, ३,
 ७, २२, वैथ, -तिनि आथी
 १, ११, १३, २, १४, २८, ८, १४,
 ४, काथी, -तिम्य दाथी ६, १,
 १३, लाथी २, ९, ९, अथ १०६,
 -तिषु वाथी १७ ४, १७, -नी
 शथी १०, २१, १५, आपथी
 २, १९, ४, ३, १८, ८×४,
 वीथी, वीपि ३, ३, ४, वीथ २,
 ५, २०, -तीनाम् वीथी २०,
 २४ २४, २७, ४ २७,
 वीथ ४, ५, ३, वृदे २, १२४,
 -तीमि आपथी १, १, ७, ५
 १५ ६, १६, ८, २३, ११×४,
 वीथी, वीपि ३, ११, १०

-तीम्याम् भाथी ५, ७, १, वैथी
 १, ११ ६, हिथ्री ३, ४, १, ६,
 ५, १३, -तीषु वाथ २५, ९,
 -त्य आपथी ५, १२, १, वीथी
 २८, ११ ९, -त्या आपथी ५
 ११, ६, १३, ८, १६, २३, १, १७,
 १, १२, ३, ८, भाथी
 व्याहति गण- -ज. अनां १८,
 ३
 व्याहति-द्वैवत- -तम् वृदे २,
 १२३
 व्याहति पर्यन्त- -न्तम् आमिष्ट
 १, २, १ : २, २ ३९, ७, ३
 १९×४, वैथ
 व्याहति पू(र्व)वा- -वांम्
 वीपि २४, ५
 व्याहतिपूर्वक- कम् वीप
 ४, ६, ३, माष्ट १, ६, ३
 व्याहतिपूर्विका- -काम्
 विथ ५५, १२
 व्याहति विद्याल- -नेन वीपि ३,
 ६, ४
 व्याहति-सामत्- -म वीथीव ३,
 ४, -मानि जैथीव ७, १३, शथी
 २, १, ११, लाथी १, ५, ८
 व्याहति स्विष्टकृत्- कृतो वीप
 १, ५, २८
 व्याहति होमा(म-व)न्त- -न्तम्
 क्व ३, १, १५
 व्याहृत्य(ति-व)त- -न्तम् वैथ
 २, ७ ४, ४, २ ६×४, वैथ २,
 १, ९, -ता वैथ ३, १७ १५
 व्याहृत्या(ति-आ)दि- -दि
 आपथी २, २०, १, वैथी २०,
 ३९. ५ अथ ४६, ८, १

व्या-हृत्य काथी २, २, ६, ७, ५, १,
 व्राथ १, १, २५
 व्या(वि-आ)√ह्वे > व्य-हाव- वा
 वापथी १३, १३, ११, १५,
 १४, वीथी, -वे वैथी १५
 ३६ ३, हिथ्री ८, ८, २८, -वैपु
 आपथी १२ २७, १७
 व्या-हावम् आथी ७, ५, ७
 व्यु(वि)√उध्, व्युधत् आपम १, १,
 ७
 व्यु(वि)√उकृ, व्युजति वीथी १४,
 २४ : २०, २२, ८ १३, आमिष्ट
 ३, ६, ४. २०, वीपि १ १३
 १६, १८, हिपि १० १५ १६
 अथ ४८, २८, वि उजति
 आथी १५, १६, ६, ७, व्युधत्
 वाथ ३, १२, ३, व्युध > उ
 म्प्रा ७, ३१, वीथीव
 आपथी १७, २, १२, वीथी १०,
 ४२ २२, वैथी १९, ४ ६,
 हिथ्री १२, १, २९, आपम २,
 २०, ३०, वीथ ३, १५ ३,
 पाथ ३, ३, ५, आमिष्ट
 व्यु(वि-उ)कृ(व >)न्ती- नी
 वीथी १४, २४. २०, लाजिष्ट
 ३, ६, ४ १९, वीपि, -मवा
 आपथी २०, १२, १०, माथी
 १, ६, १, १, २ ३, १, १, वाथी,
 -मवा आपथी २०, १२, १०
 वाथी ३, ४, २, ११
 व्यु(वि-उद्) > व् > छिद् > वृत्
 छेद- -ने अप ७२, ३, १०
 व्यु(वि-उ)च्य- वि√वृ द
 व्युत्- वि√वे द
 व्यु(वि-उद्) > व् > वृत् > वृत्

a) पाठे वृ १८९४ अ द । b) व्याहृतीमि इति अ । c) सवृष्णा इति अ । d) व्युत्सी इति पाठ । एति घोष (वृ से २, १, १०, ३, वीपि हिपि च) । e) पाठे वैप १ व्युत्पास मे २, १३, १० हि द । f) सवृष् लायाथं यथा ते ४, ३, ११, ५ च व्युजति इति पाठे । g) विप, नाम (दयम्) ।

कृष्ट-ष्ट बाधौ २,१,५,१३
 व्यु(वि-उद् >)त्/क्रम्, व्युक्रामत्
 बाधौ ७,१३ १९, ३५, माधौ
 १,७,४,१६, वैधौ, व्युत्क्रामन्ति
 बाधुधौ ४, ८ ७, व्युत्क्राम
 माय १, १३, १८, व्युत्क्रामत्
 बाधौ ८, ९, १३, २५, २, २,
 आपधौ ९, ५, ५, वाठधौ
 ११०, वैधौ
 व्युत्क्रम- म भाशि ११४,
 -मात् तिप् ७,३ १०
 व्युत्क्रम्य बाधौ १३,२, ५, कौशि
 ५४.
 व्युत्क्रा(त् >)न्ता- न्तायु
 बाधुधौ ३ ४५ ८
 व्युत्क्रामत्- सन्ती बाधौ १, ७,
 २,३३
 व्युत्क्रामत् > ता(त्-आ)दि- दि
 धाधौ १३ ४, २६, २४, ३ ३६
 व्यु(वि-उद् >)त्/स्र् व्युत्सारयति
 माधौ ५ २,११,२८
 व्युत्- व्यु(वि-उ)द्
 व्यु(वि-उद् >)त्/स्र्, व्युत्सारयति
 माधौ ४,३,३
 व्यु(वि-उद् >)त्/त्रस्र् > व्युत्-
 त्रास्य आपधौ १३ ५,११
 व्यु(वि-उद् >)त्/पद् > व्युत्-
 पत्ति- ति द्वे २,१०८
 व्यु(वि-उद् >)त्/पूर्व- वं हैपा ३,
 १४
 व्यु(वि-उद् >)त्/प्र/यच्छ व्युत्प्र-
 यच्छति बाधौ ५ १६ १८,
 ११,९ ११
 व्यु(वि-उद् >)त्/सद् > व्युत्
 सादयाम्/जस्र्(मुवि),
 व्युत्सादयाम् सास द्वे ७,५३

व्यु(वि-उद् >)त्/सिच्,ञ्च्,
 व्युत्सिञ्चति माधौ ४, २०, ४,
 दिधौ ६,४,१४
 व्युत्सिञ्च आपधौ ४, १४,४, ६,
 १२,४, बाधौ १,१,४ २०
 व्यु(वि-उद् >)त्/स्र्ज्, व्युत्स्रजत्
 आपधौ १२,२५,५
 व्यु(वि-उद् >)त्/स्र्प्, व्युत्स-
 र्पन्ति माधौ ५,२,१६,१८
 व्यु(वि-उ)द्/न्द्, व्युत्स्रि बाधौ
 १४, ५ २४, या १०, ४, १,
 व्युत्स्रि आशिप् २, ५ १०
 २०
 व्युत्स्रि या ७,२४
 व्यु(वि-उत्त >)त्/त्- न्त बाधौ १४,
 ५ २४.
 व्यु(वि-उ)द्/न्द्- न्च् बाधौ २,७,
 १०
 व्यु(वि-उ)द्/क >)का- का आपध
 १,११,२८, हिप् १३,७८
 व्यु(वि-उ)द्/द/म/ञ्च्, व्युद-
 चति बाधौ २८, २९ ६, १,
 व्युदचन्ते बाधौ १५, ८ ५,
 व्युदचन्ति बाधौ १०,२५ १०
 बाधि १, १५ २५ व्युदचन्त्य
 बाधौ १५ ८ ३
 व्युदचति आशिप् ३,८,२ १५
 व्यु(वि-उ)द्/द/प्र/सो > व्युदव-
 सान->थीय- थाय बाधौ
 २६,१३ ११
 व्युदवसाय बाधौ २६, १२ ११
 व्यु(वि-उ)द्/जस्र्(क्षेपे) व्युदस्रति
 आशिप् ३ ६ १ २९, वीप्
 १,९ ५, हिप्, वीप् ५०,२,
 या ६ २२, व्युदस्रेव गीष्
 ९ १३

व्यु(वि-उ)द्/अस्य बाधौ १८, १२
 ९, द्वे ७,८६
 व्यु(वि-उ)द्/अस्यत्- स्यत् आपध
 १,२०,११, हिप् १,६,२५
 व्यु(वि-उ)द्/आ(त्-आ)/नी, व्युदानयति
 बाधौ ३,२,७,५७
 व्युदि(वि-उद्/इ), व्युदेति बाधुधौ ३,
 ७५ १२, ७९ ११, व्युदन्ति
 बाधुधौ ३, ७९ १०, व्युदेत्
 बाधुधौ ३, ७५ १०
 २ व्यु(वि-उ)द्/इत्- ते बाधौ १,४,
 २,९
 १ व्यु(वि-उ)दित- वि/वद् इ
 व्यु(वि-उ)द्/उच्छ्, व्युदुच्छति बाधौ
 ४,११,३, वीप् १,५ १९
 व्यु(वि-उ)द्/ऊद् (आपणे), व्युदुहति
 बाधौ १७,१, ३, २१, ३, ३, १,
 आपधौ २,११,९, माधौ
 व्युद-ऊच्छ बाधौ १०, २४ १९, १,
 २२, ७ ६, वैधौ १८, १९
 २१
 व्यु(वि-उ)द्/एह्, प्रद्, व्युदुहति
 माधौ १,३,४,७, ७,२,११
 व्यु(वि-उ)द्/आह्य बाधौ १, ५ ६,
 २०
 व्यु(वि-उ)द्/प्रन्त्य > व्युद-प्रन्त्य-
 न्च् बाधौ १४,१,२०.
 व्यु(वि-उ)द्/विश्र्, व्युद्विश्रति माधौ
 ४,२,३, व्युद्विश्रेव बाधौ १, १,
 ३,१४
 व्युद-दिस्य बाए ११ १६
 व्युद दिष्ट- एस्य बाधौ १, ३, ५,
 १३, -हे बाधौ १,१,३,१५
 व्यु(वि-उ)द्/घाष्(उद्धौ), व्युदाघोष्
 बाधौ ११,४,१३, बाधौ ४, ४,
 १२

a) = राणा ऋ १ १६४, ४०। औ ६ २२ १ प्रयु व् व्युद्वा इति, षाठ ११,९ व्युन्दत् इति, वे २६, ६९,
 १३ -वोडु इति च पाठे । b) वल. c) सप्र आपधौ १६ १४, १ वदसिन्वा इति पाठे ।

व्यु(वि-उ)द्/धृ(<√ह्)>व्युद्-
धातम् आश १, १०, ११, वीस
६, ३०.

व्युद् शय आषथी ५, ५, ९, १८,
९, ११, वीथी.

व्यु(वि-उ)द्/वह् > व्युद्-वहण
माथी १, ५, १, २१, २, ५, २, ५,
५, १, ७, २०, द्विथी ११, ७, ५८.

व्यु(वि/र)म् प्रष्ट व्यु(वि/र)द्
द

व्यु(वि-उद्)>न्/नी, व्युसयवि वीथी
३, २० १२

व्युन्-नीय वीथ १, ४, ३८

व्यु(वि-उद्)>न्/सृम् > व्युद्-म-
सृम् माथी २, ५, ४, ७

व्यु(वि-उ)प/सुद् > व्युप-सोद->
व्युप-सोप-व्यभिहासो(स-उ)
दासन्त्रज नामधेयप्रहण प्रे (प्रे)
पण- आनि आषथ १, ८, १५,
द्विप १, २, १०३

व्यु(वि-उ)प नि/घा > व्युपनि घाय
वीथी २५, ६ २,

व्यु(वि-उ)प/रम् > व्युप रम- भाम्
आथी ७, ११, १९

व्यु(वि उ)पवीत- त कप्र १, १, ४

व्यु(वि-उ)पा(प-भा)√दा (दाने) >
व्युपा दान- भाम् निम् ७, ७ ३०

व्युत्-घह- वि/षद् द
√व्युप् पाधा दिश पर दाह, विगानि,
व्योषत् काथी १०, ९, ४६

व्युपित- वि/वस्(वीस) द

व्युपि- वि/वस्(निवास) द

व्युपि- व्युपि- वि/वस्(दीस) द

√व्युत्-

व्युह्य, व्युह्यमान- व्युद्- वि/वह् द

व्युत्- वि/वि द

व्यु(वि/र)ष्, व्युर्षोश् अथा ३, ४, १,
पृथि *शोर्षोश् अथ १३, ३,
आं ३. ५८

व्यु(वि-र)र्ष्य- > व्युर्ष्य माथी-
भाम्य मीस ६, ५, १७

व्युपिपी- वि/वस्(दीस) द

व्यु(वि-र)म्प्र- भाम्य माथी १,
१, २, २९

व्यु(वि/र)ह् (प्राणो), व्युदति वाथी
४, ९, ५, काथी ३, ५, १७, ५, ३,
२८, आपथी, व्युहत काथी ५

५, २३, वीथी ५, ९ ९,
व्युहामि माथी ५, १, ९, २४, १,
पृथुह्यम् वीथी १२, ६ ८,

आपम २, ७, १९, वाग् २, ६,
१७, आमिष् १, ३, ३ ६, भाग्
२, २० १, वैष् २, १३ १३,

द्विष् १, १०, १, व्युहत् वीथी
२, २७. १०, १, व्युहत् द्विथी

११, ६, ६१, ६२, काथी ७, ९,
११, छुद् ३, १० ३, निद्,
व्युह्यु वाथी ४, १०० १४,

व्योहीव छुद् ३, १२ ४
पृथुह्यते आपथ ३, २, नाग् १,
१२ १७

व्यु(वि-र)ह- ह निद् ५, ६ १,
५, -हम् निद् ५, ६ ६, -हवो
अथा १६, ७७, -है अथा १६,
५१, -हैन् द्विथी १६, २, १४,
निद् ८, ११ ४, २०, ४,

माया १६, २३, -है अथा ८,
४०

व्युह-काम- न सुग् ३ १०
६, -मम् छुद् ३, १० ४

व्युह-कारि(र)त्- न निद्
५, ६ ९

व्युह समाधि- चे लथी १०,
३, १६

व्युह समुह- नै निद् ९ १०
१४

व्यु(वि-र)हत्- इद् वाथी ८, ३,
११

व्यु(वि-र)हन्- भम् वाथी ४ ३,
४१, वीथी ३, १९ ५ -नाग्
निद् १, ११ ११, -ने वीथी

२०, १४ ८
व्युहन-पिप्यजन- ने वाथी
८, ३, ९

व्यु(वि-र)हित- उ छुद् ३ १०
३४

व्यु(वि-र)ह्य काथी १, ३ १२
आपथी ३ १, २, ३९, ७, ४, वीथी

व्यु(वि र)ह्यमान, न- न निद् १
८ ८, -ने माथी ४ १७, ५
द्विथी ६, ३, १०

व्यु(वि/र)ष्, च्चार या द २१
व्यु(वि/र)ष्, व्युष्यते वीथी १, १९
३, वि - कष्यते भाति २५१
व्युष्यते आपथी १४, २६ ५, ५

द्विथी १५, ६, ३६, ४०

व्युष्यति वाथी ३, ४१ ३५

द्विथी ४, २, ५६, व्युष्यत
वाथी ३, ४१ ३६, व्युष्यति

a) व्युद् इति ० शोष । b) पाथ (७, ४, २३) तु <व्यु(वि-उ)द्/वह्/ह् इति । c) द्विप पाठ । d) वस । e) √वुष् इति [प्ले] BPG । f) √वुत्, √वुत् इति अन्ये (तु भाष्ये) । √उष्, √वुष्, √वुत् इति [प्ले] BPG । g) व्युपी इति वीस । h) अथ प्रष्ट व्युद् मा इति शोष (तु अथ आपथी २, ४, ९) । i) सपा वीथ १, १३, ३० व्युपिह्यम् इति पाठे । j) पाठे ३५ १, १५ ४ b इ । k) व्यु इति पाठ १ वनि शोष (तु वास) ।

शाधौ ४, १, २४^१; व्यधंपेयम्
हिधौ ४, २, ५६; ६७.

व्यू(वि-ञ्)धुंक्- -क्: आपधौ १२,
२४, १४; वैधौ १५, २१: ११;
-कम् वाधुधौ ४, २३: ५.

व्यू(वि-ञ्)द्वा- -द्वा: वौधौ १८,
२५: ७; ८; आपध १, २८, ४;
हिध १, ७, ४०: -द्म् वौधौ
१४, २७: ११; १८, २२: ९;
२५: ९; वाधुधौ ४, ५८: १;
वा १, ७; -द्भ्यो: वा ४, १५;
-द्वा वौधौ १८, २५: ८; -द्दे
आपधौ २१, २०, ३१; हिधौ
१६, ६, ४१^१; -द्देव वौधौ १८,
२५: ९; -द्दौ वाधुधौ ३, ४१:
३५.

व्यूद्-भाद्- -भाग्भ्य: आपधौ
९, ४, ९; हिधौ १५, १, ७८; ७९.
व्यूद्-वधन्- -नम् वौर १०, १,
२४.

व्यू(वि-ञ्)दि- -दि: आपधौ ६,
६, ८^१; वौधौ २, ५: ५^१; १८,
३: ५; वैताधौ ८, ३.

व्यू(वि-ञ्)व्यमाल- -न: माधौ १,
६, ५, १.

व्यू(वि/क)प् > व्यू(वि-ञ्)वत्-
-वत् आपधौ २, १४, ४; १९,
१०; वाधौ १, १, १, ५३.

√व्ये > वी पाषा. भा. उभ. संव-
रणे, व्ययस्व आपधौ ४, ६, ४^१.
प्रीवीयमाण, न- -न्य: वौधौ १,
१९: ३४; वाधौ १, ३, ६, १९;
वैमा १३, १०; -न: माधौ १,

३, ४, २६.

व्यू(वि-ए)नस्- -नस: हिध २, ३,
१०^१.

व्यू(वि-एत)नी- -नी उच् ८,
२८^१.

व्यूमान- व्य(वि/ञ्)घ् द.

व्यूमन् (व्यम.)- -पाठ ४, १५१; -म
वौधौ ३, ५: २१; १०, ४२:
२४४; वाधौ; अप ४८, ७५^१;
११^१; निध १, ३; ६^१; १२^१;
वा १४, ११^१; -०म विध
१, ५४; -०मन् शाधौ १५, १७,
१; आपधौ ४, ५, ५; १९, ३,
४^१; वौधौ; हिधौ १२, ८, २९^१;
आधिह ३, ६, ३: २५^१; वीधि १,
१२: १६; -०मनि आधौ ३, १, ४^१;
उच् ८, १८; -मनी अप ४८,
६६^१; -मने वाधौ ३, २, १,
३०^१; -०मा वाधौ १७, १०, ९;
माधौ ६, २, १, २३; वाधौ २,
२, १, १७; -मानम् शाधौ १४,
२४, १^१; -मा आधौ ९, ८, ६^१;
आपधौ २२, १२, १३^१; -मि अप
६५, ९, १०; ६८, १, २३; ७१,
१५, ४; वृदे.

व्यूमन्-वारिद्- -रिण: अप ५२
१, ३; -रिणाम् अप ६१, १,
२०.

व्यूमन्-सद्- -सद् वा १४, ३१^१.

√व्रत् > पाषा. भा. पठ. गौ; सुत. पठ.
मार्गसंस्कारगण्यो; व्रजति वौधौ
२२, १५: १०; माधौ १, १,
१, २५, २, १, २१४; वाधुधौ;

व्रजन्ति वाधौ २, १७, १६; १९,
३०; ६, १२, ६; १३, १; शाधौ;
मजामि अप ४०, ५, ५; व्रजेत्
आधौ ४, १०, ७; ५, २,
९; आपधौ १४, १५, २१^१; वौधौ;
व्रजेयुः आधौ १, १२, ४; १२,
६, ११; १८; शाधौ.

व्रजन् > वा ऋषा ७, ३३;
व्रजिष्याव: वाधुधौ ४, ७५: ९.

मज्(व्यम.)- -वा ३, २, ११९; पान
२, ४, ३१^१; -ज: अप ४८,
१०, ११^१; निध १, १०^१; वा
६, २१^१; -जम् वाधौ २, ६,
१०^१; १^१ आपधौ २, १, ५; १६,
१४, ५; २२, १७, १०^१; वौधौ;
-जस्व वौधौ १७, १९: २२;
आधिह १, ३, २: ३; आपध १२,
४; माध २, १८: १०; १९:
९; ऋषा ८, ११^१; -जान् आपधौ
१७, २१, ७^१; -जे आपधौ २०,
७, ७; माधौ २, १, ५, १७; हिधौ
१४, २, २०.

मज्-किल्- -किल्त: आपधौ
१६, १३, १; १८, १३, ६; वौधौ
१२, ८: ११; वाधौ ३, ३, २,
१७; वैधौ १८, १६: ६५; हिधौ
११, ८, ११; १२, ५, १४.

मज्-परिहित- -नम् अप ३, ५.

मज्- -जव: माधौ २, १, ३,
१३; वाधुधौ ४, ३३: १; २;
वाध १०, ७; माध १, ११, १;
-जवाम् आधौ १, १२, ३; -जवु
वाधौ ४, ८, २२; -जव् आधौ

a) वा ६, १, १५; ११; ४३; ४४; ४६; ७, २, ६६; ३, २७ पराशुष्ट: द. १
१, १३, २ टि. द. १ c) वैध १ द. १ d) = उक्- १ e) = दिह- १ f) सवा. ऐवा ८, ८ आधौ ३, १, ४
व्यूमनि इति पाठे. १ h) पाठे. वैध १ समुखे उी १८, ३, ८ टि. द. १ i) = वहु- १ j) = एकह-विधेय- १
j) वा ७, २, ३: ३, ६० पराशुष्ट: द. १ k) वृ. पाणन. १ l) = पर्वत- १ m) = मेघ- १ n) सवा. तां २१,
३, ७ हिधौ १७, ६, ४४ वज्रत् इति पाठे. १ o) तुम. एव. = गो-समूह- १

१, १२, २७; आपथी १५, १०, ८; वाथी; -अमः आथी ६, १३, २; -जन्तम् वैष १, २, २; श्वे ८, ३७.

मगन्ती-न्तीः माथी १, १, १, २०; वाथी १, २, १, ८.

मृगजन्-जम् जम्मा ८, १५; -ने माय २, १५, ६०.

मृगि- (>मृगि-मत्- पा.) पाग ८, २, ९.

मृगि-जिः अय ४८, ८३.

मृगित-नाः द्राथी १५, १, ८; लाथी ५, ९, ७; -वम् दाथी ९, ३, २३; लाथी ३, ७, ८.

मृगित्वा वाथी ६, १४, १०; १२, ६, १७; द्राथी १, १, २४; लाथी.

मृगित्-जितम् वाथी ४, ६४; ७.

मृग्या-पा ३, ३, ९८; -ज्या या १, १.

मृग्याज-जम् अय १, ४१, ३; अशो ११, ३.

मृगि-पाठ ४, १२५.

√मृग्य-पाया. भा. पर. गती.

मृगिमन्-√हृद् द.

√मृग पाया. भा. पर. शब्दे, सुरा. उम. पात्रविचूर्णे.

मृग-पाग २, ४, ३१; ३, १, १३४; ५, २, ३६.

मृग-कृमि-पा, पाग २, १, ४८.

मृग-द्वार-रे वाथ १८, १६; वीथ १, ५, १२३.

मृग-यम-हीन-नाः वैथ १, ८, ६.

मृग-संपन्न-अः वाथ १९, ३९.

मृगित-पा ५, २, ३६; -जानि श्वे ३, १३५.

मृत्-पाग २, ४, ३१; ५, २, १३६;

-जितः आपथी १३, १६, ८; द्विथी १०, ५, १३; -तम् आथी ३, ८, १; १४, २२; ८, १४, १;

६; १०, ३, ८; ११, ६, ११; १२, ३, ४; आथी; काथी ४, १५, ४; आपथी २१, १२, ३; द्विथी १७, ६, ४; द्राथी ८, ३, ३; लाथी ४, ७, १५; १०, ९, १०; निम् ६, ७; ६३, ९, १०; आपमं २, २०, ३२; वीथि २, ७, १०; द्विथि २३, ३३; अय ४८, ६१; अयं २, ६६; निप २, १; या २, १३; १२, ३२; -तस्य वाथी २, १३, ७; आपथी १०, १७, ७; १३, १६, ८; वीथी; लाथी ४, ७, ११; वाथ २९, १३; -जित आपथी ९, ४, १०; १६, १५, ७; वीथी १३, ४३; १९; माथी; द्विथी १५, १, ८; -तात् द्राथी ८, २, १३, २२; लाथी ४, ७, १; ३; निम्;

वाथ २३, ७; -जितम् आथी ८, १४, ६; आपथी ४, ३, ११, १, १४; १८, ४; वीथी; -जानि वीथी ३, १२, १४; ३, १२, वाथी ३, ५, ११, १, ४, ४, १५, ६; काथी; शीथ २, १३, ५; -जितम् आथी ४, ४, ३, आपथी १०, २२, १२, अयं, -ते वीथी २, १६, ११, ३, ५, १; वाथी; द्राथी २, ३, २; ६, १, ७; लाथी १, ६, ३; २, ९, ५; निम् ७, ९, २; आथ १, २१, ७; पाठ २, ८, ४, २, १५, -तेन वाथी ४, १, १, आपथी ५, ११, ७; वीथी, -तेनः माथी १, ५, ६, १, वीथ ५६, ७; -तेन आपथी ११, १, ७; द्विथी १०, ३, ११, वेताथी; -तेः पाग १, १६, १, वीथ ३, २, ४, २४.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

मृत्-कम्-कम्-व्या द्विथी १०, १, ३, ४, ११, -स्याः द्विथी १०, २, ५, ३, ११, -ते वाथी २२, १, ६, १, १०, -तेषु वाथी २, १, ३, २३; द्विथी ६, ७, २.

a) वैष १ द.। b) सवा. ऋ १०, ६३, १५ प्रम. घृत्वे इति पाठे.। c) उ. पाया. पासि.। भावे हृत्। d) = सोन-। कर्त्तरि इः प्र.। e) उ. BPG.। f) उ. पागम.। g) विशेष. टि. द.। h) = महा म- (एकाह-); i) उक्तम् पाठे. घृ ३९३ ८ द.। j) पाठे. घृ २२७१ d द.। k) पाठे. घृ २३३९ p द.। l) = निवन-नेद- (घृ. तां ५, ३, ५)। m) पाठे. वैष १, ११८५ n द.। n) पाठे. घृ १२४३ h द.। o) = कर्म-। p) = ऋदि-विशेष-। q) पाठे. वैष २ महा मै ४, ११, ४ टि. द.। r) यथाविहितः इत्यस्य स्थाने सवा. वीथ २, १, २४ यथाविहितः इति पाठे.। s) पाठे. वैष २, ३६, यथाय सैवा ३, ७, ७, ११ टि. द.। t) = अथोभोमयोद-गत- (साम-विशेष-); u) = स्रोद-गत- (साम-विशेष-); v) पाठे. वैष १ सुशेष वी ३, ६, ६ टि. द.। w) तस्येदानीयम् क्व प्र.। x) पाठे. घृ १८९४ ० द.। y) यव.।

मत-चर्य-यां- -यम् वीथ २,६,१७;
 -यां आपथी २,४, १३; माथी
 ८,१०,१७; २२, १४; वीथ ३,
 २,३; २८; -याम् आपथी ९,
 ४,१२; वीथी ९,१६, ४१; वीथ
 ३,४,२३.
 मत-चारित्- -विणः माथी १,५, १,
 ३२; निप ३,१३१; मा २,६१;
 -रिणो माथी ६,१,२; वीथ १,
 ५, १६; -री आथी २, २, ७;
 वीथी २४, २१; १२; माथी.
 मत-चारिणी- -त्री वाथ २७,५५.
 मत-चोदना- -ना मौत् ६,४,३५.
 मत-दुष्- -दुषः आथी १२, ८,
 २७; वीथी २३,९; २३; -दुषम्
 वीथी १६,२; ९.
 मत-दु(प>)वा- -वयोः वीथी
 ६,१; २३; ९; ३९; १०, १७;
 ३९; -ये वाथी ७,४, १६.
 मत-दुह- -दुक् आपथी १०,१६,
 ८; १२, २१, ८१; माथी २,२,
 ५, २८१; वीथी; -दुधु वीथी
 २३,९; २२.
 मत-दु(ह>)हा- -हयोः वीथी १८,
 ११; २९.
 मत-द्वैव्य- -व्यम् वीथ २, १०;
 १३.
 मत-द्वैव्य- -नाथ वीथी २२,११;
 १४; -ने वीथी २१,९; २८.
 मत-धर्म- -र्मात् मौत् ९,४,३७.
 मत-धेतु- -दुम् काथीसं ३६; ६.
 मत-नियम- -नेषु अथ ५१,५,१.

मत-नियम-चारित-वृत्त-रक्षण-
 गुण-संपन्न- -अम् अथ ३, १,
 १३.
 मत-नियम-होम-जप-पर- -रा
 काथ २७०; ४.
 मत-निवेदन- -नेषु अथ ४०,३,८.
 मत-न्याय- -येन निम् ६, ८; ५.
 मत-पक्ष- -क्षयोः दाथी १०, १, ९;
 लाथी ३, १, १०; -ओ जैथी
 २३; १४; दाथी २, २, ३७;
 लाथी १,६,२३.
 मत-पति- -तपः पांवा ८, २^६;
 ४३, ५; -तयः कौत् ५६,
 ७^{५६}; -तये आथी ३,१३, १;
 पांवाथी २, ४, ९; ३, ४, १३;
 काथी; -पतिः आथी २,१२,५;
 ८,१४,६^६; आपथी ४,३,४४४;
 वीथी; -तिभ्यः भाथ ३,५; ५;
 कौत् ५६,७^१; -तिम् हिथी ६,१,
 २९; आनिथ १,१, ४; ९; हिथ
 १,७,८; -पंते वांथी ४,८,३;
 १२, १०; वाथी २, १, ११;
 आपथी ४, ३, २^{४६}; ५, ११,
 ७^{४४}; वीथी, माथी २, २, १,
 ८; हिथी^३; ३, ४, ५-६; १०^३;
 २९^१, -ते वीथी १७,५१; १८;
 ५२; १; ५३; २; १३; २८, २;
 ३४; ३९.
 मत-पत्नी- -तम् कौत् ७३,९^१;
 मत-पती- -ती माथी ५,१,
 ७, २९^१; -ती.म् अथ ४०,
 ३, ८, ६, १०; -तीनिः अथ

४६,२,२; -तीभ्याम् वीथी २०,
 २६; ७; -तीम् आथी २, १२,
 ६१^१; आपथी ९,२,४,४,१७;
 काथीसं; -तयः अथ ४६, ७,
 ३; ५.
 मत-पत्य-> मत-पत्य-काम-
 -माः माथी ५,१,७,२८.
 मत-प (ति>)वी- -न्यः कौत्
 ५६, ७^१.
 मत-परिमाण- -णम् वीथी १२,
 २४; ४; -णानि वीथी १२,
 २४; ८; हिथी १०, ३, ४०.
 मत-पद्वन्- -वै वीथ १,१६; ५.
 मत-पद्- -पाः आथी ३, १२,
 १४; १३, १२; ४; वीथी.
 मत-पारायण- -णम् वीथ २, ११;
 ११.
 मत-पृष्ठ- -ष्ठम् वाथी ३,२,५,१.
 मत-प्र- -प्रः आपथी १०, १६,
 १६; माथी १०,१०,१६; ११,
 ४; ८; माथी; -प्रय आथी १२,
 ९,८,९.
 मत-प्रदान- -नम् आपथी १०,
 १०,६; वीथी ६,१; ५; माथी;
 -ने काथी ८, १, १४; वीथी
 २१, ७; २३; ४; वाथी ४,
 ५६; २; वीथी १२, १३; १.
 मत-प्रमृति- -ति वाथी २, १, ८,
 १८.
 मत-प्र- -प्रम् वीथ २, १२;
 २४; वीथ २, ३, २.
 मत-प्रान्त- -न्तम् वीथी १२,

a) = मत-वृत्त-। b) विच.>नाथ.। उस. कवन्तम्। c) परस्परं पाठे.। d) वत्.।
 e) = कर्म-विशेष-। f) (साधोः) द्रष्ट.। g) स्या. निष्ठ, ९, २६^१ तैसा ४, ४१, ६^१ वतपठे इति पाठे.।
 h) स्या. मे ४, ९, २४ तैसा ३, ७, ४, ८ प्रत्य वतपठे इति पाठे.। i) = सया. मा ५, ६ मास ३, ४, ३, ९।
 जाठ २, ८ प्रत्य तु वतपठे इति पाठे.। j) विर. (अथ-।) साऽस्यदेवतादयोः कण् प्र.। k) = कन्-।
 l) = इधि-विशेष-। m) = आ-कृति-। n) *तिम् इति मान.। o) वैप १ द.। p) एर. = दुष्-।
 g) = चमस-। उप. वरणे क्व.।

१७ १५, १७x, २३, १८
२४^०, २५^०

मत्-मृत्- -मृत् आश्री ३, १२, १३,
१४^०, आश्री ३, ५, ११,
आपश्री, -मृते श्वाश्री ३, ४, १२,
काश्री २५, ४, २८, आपश्री ९,
४, १६, वीथी
मावमृ(त>)श्री^० -श्रीम्
आपश्री ९, ३, २३, २४, ४, १७, ७,
२, वैथी २०, ९ १, द्विथी १५,
१, ७३, ७४, ८५

मत् श्रेय- वे वैथी २, १० : १२
मत् मिथ^०- -अम् काश्री ८, २, ३,
२६, ७, ३३

मत् रूप- -वाग्नि वाप २४, ४

मत् रोप- ष कप १, ६, १४, पावा
६ ३ ८६, -ये वैताश्री १२, ५

मत्-वद् काश्री ८, १, ८, मीम् १०,
६, ४३

मत् वत्- वत् काश्री २४, २, २७,
-वत् आश्री १०, २, ३१,
-वत्सु लाश्री ८, २, १४, -वन्त
काश्री २३ ४, २१ -वन्तम्
आश्री १०, २ २७, ११, २, ३,
-वन्त आश्री ११, ४, ९ काश्री
२४, २, ३७, २, ३१, -वन्तौ कौम्
६७, १७, १४०, ४, अय १९, १,
३, ४, -वात् काश्री २३, ४, २७,
कौम् ९४, ९

मत् वती- -श्री गोय २, ६, ८,
द्राण २, १, २३, कप ३, ६ ६

मत् विद्^०- -वित् अय ४६ ७, १

मत् विपरीत- -से आग्नि २, ७,
४ ४, वीथ ४, ११, १

मत् विरोप- -य अय ४३, २, ९

मत्-विसर्ग- नी आग्नि १, ६,
३ ६२, -गौम् वैथ २, ९
११, -गौ वीथी २०, २४ ४७
मत्-विसर्ग-होम- -मम् वैथ २,
१२, ७

मत् विसर्जन^०- -मम् कौम् ४२,
१५, ६८, ३५

मत्-विसर्जनी- -नीम् वैताश्री
४, २२

मत् वेत्य- -लायाम् अप्राय ५, ४

मत् रोप- -वम् वाप २३, ११

मत् अपर्ण^०- -गम् श्वाश्री ६, १२,
२७, वीथी १६ १ ५, १०,
-गान् वीथी १६, १ ८, -जे
वीथी ६ ६ १५

मत्-अपणा(ण-आ)पार- रम्
वीथी ६, १ १२, -रे वैथी
१२, १३ १४

मत्-संक्षय- -वात् आश्री ८, १४, ४

मत्-संक्षय- -त्य वैथी १२ २४ ५

मत्-समाप(न>)श्री^०- -नी कौम्
४२ १७

मत्-समाप्त^०- -सा आग्नि १, २,
३ २६

मत् समाप्ति- -श्री वीथ ३, ३, ३१,
कौम् १२, ६७

मत्-समुच्चय- -व्या वीथी १२, १०
६१

मत् साम्यन्ध^०- -घात्^० निव् ५,
१०. ११

मत्-सूक्त- -नम् वैथ ६, ११ २

मत्-स्य- -स्यत्य विप २८, ४८

मत्-स्थान- -गम् निव् ६, १९,
-ने काश्री २१, २, ९

मत्-स्थान^०- -न निव् ९, १२.

३०

मत् स्नायक- -क पाण २, ५, ३२,
२४, गीथ ३, ५, १२, वैथ

मत् स्विष्टकृत्- -कृत अय ४०, ६,
११

मत्-हानि- -नी घांथ ५, १, ९,

मत् होम- -मान् काण ४३, ६

मत्(त-अ)तिपत्ति- -तौ श्वाश्री ३,
१३, २

मत्(त-अ)तिराज^०- -जान्याम् लाश्री
१०, ८, ७, -जे निव् ५, १०
१६.

मत्(त-आ)दान->दानि(य>)
या^०- या. कौम् ५६, ५

मत्(त आ)दि- -दिमि आग्नी
१४, ८, -दीनि काश्री ६, १०, २

मत्(त-आ)देश- -शम् विप २९,
१, -शा वाण ६, २, -शे अय
४६, ७, ४

मत्(त-आ)देश- -ने माण ३,
४ १, ५ १३^१

मत्(त आ)देशान- नम् आण १,
२२, २२, वीथ २, ७, १, गीथ २,
११, १, वैथ १, १२ ६६, १८ ५

मत्(त-आ)देशान- -गौपु पाण २,
१०, १०

मत्(त अ)नुचारिन्- -री वीथ १,
७, २

मत्(त-अ)न्त- -ते द्राश्री ८, ३,
३७, लाश्री ४, ७, १५, वीथ
१, ७, १३x, माण अय ६५,
३, ८

मत्(त अ)न्तर- -रेणु वाप २३, ४

मत्(त अ)न्तर- -से आग्नि ३,
१, ३ १८, वीथि २, ७, १६

a) श्मोण इति सक्तुं टि.। b) इति विरोप-। c) एव = दुग्ध । d) उप < > विद् (गानि)। e) उप करण प्र । f) वाप (दक्षिणा मे-) । g) मय । h) उप स्य य-> (साधे) प्र । i) य देवी (पा २, ३, २५) । j) एव = साधत् । k) प्रवीज्यान् टा प्र ।

व्रता(त-अ)पवर्ग- नै शोभो ४,
१६,१; वौशु ५,७,१.
व्रता(त-आ)ति- -सिम् निम् ६,८ :
२; ८,१० : ४६.
व्रता(त-अ)भाव- -वः वैश्री १९,
१ : १९.
व्रता(त-अ)धै- -धैम् वैश्री १४,४ :
१८.
व्रता(त-आ)वृत्ति- -वितः वीष २,
१,२४^४.
व्रता(त-अ)शक्ति- -क्तो काश्री २५,
४,३८.
✓व्रतति पा ३,१,२१; व्रतयति काश्री
७,४,२८; २२,८, १५; आपश्री;
व्रतयतः माश्री २, २, १, ४३;
व्रतयन्ति शोभो ७,७,८; आपश्री
१०,१६,७; माश्री १०,१०,३;
व्रतय आपश्री १०, १७, ८;
वौश्री ६, १९ : २६; माश्री;
व्रतयेत् शोभो १४, १६, ३;
आपश्री १०,१६, ६१; ७; १०;
११; १४; वौश्री.
व्रतन- -नम् वौश्री ६, ७ : १९;
१९:२५; -ने द्विश्री ११,५,६^१.
व्रतन-वेला- -ला वौश्री ६,
१ : ६; २१,१० : २०.
व्रतयद्- -यम् आपश्री १९, ४,
२; द्विश्री १३,८, ३५; -यन्तम्
आपश्री १०, १७, १०; माश्री
१०,१०,१२; माश्री.
व्रतयित्वा आपश्री १०, १७;
११; वौश्री ६,७ : ११×४.
व्रतयिष्यन्- -ष्यन् वौश्री २१,
१० : ५; माश्री ६, १, ४, २०;
द्विश्री ११,४,४.

व्रतिन्- -तिनाम् अप २३, १, २;
भाष १९, ४८; विष २२, ४९;
-तिनोः वौश्री ६, १९ : २३;
३१ : १९; -ती वैताश्री ६,१३;
कप्र ३,६,१५; वौश्र.
व्रतो(त-उ)त्तम- -माः काश्री २३,
५,६.
व्रतो(त-उ)दयनोद- -यान्नाम्
लाश्री ११, ७, ११; -ये आश्री
११,७,१४.
व्रतो(त-उ)पचार- -रम् अप १०,१,
४.
व्रतो(त-उ)पनयन- -नम् वामिष्ट
२, ७, १ : १४.
व्रतो(त-उ)पषास- -सैः व्रामिष्ट २,
७,१ : ५.
व्रतो(त-उ)पवास-नियमा(म-आ)
दि- -नीतान् संघ ३३७.
व्रतो(त-उ)पवास-नियमे(म-द)प्या-
दान-धर्म- -मैः संघ ३३७.
व्रतो(त-उ)पापन- -नम् काश्री २, ९,
५; ५,२८; ८,२१^१×४; आपश्री;
-नामि वापूश्री २, ११ : १२;
-ने वौश्री २०, १ : ४०; काश्र
४३,५.
व्रतोपावन-प्रतीता(ता-आ)
ज्यनाग-भागावदान-पूर्णावत-
विष्णुवन- -मान् काश्री ६, २,
४.
व्रतोपावन-यद् काश्री ४, १२,
१०.
व्रतोपावन-व्रतविसर्जन- -जे
वौश्री २४,३६ : १.
व्रतोपावनीय,सा- -नम् काश्री
२, १, १०; आपश्री ९,१, १३;

वौश्री; -यस्य वौश्री २५, ६ :
७; -या वौश्री २५, ६ : ४.
व्रतो(त-उ)पावन-प्रमोचन- -नम्
काश्र ४२,४.
व्रतो(त-उ)पेत- -तः काश्री ३२ :
२; वौश्री २९,१३ : ११; वापूश्री
३, ४१ : ३; वौश्र १, ७, २९;
-तम् वापूश्री ३,४१ : ७; -तस्य
वौश्री १, १ : ७; २४, २३ : ३;
माश्री १,१,२, १२; ७, १, ७;
८,१,१८; ३, १,८; वापूश्री २,
१५ : १; -गानाम् वापूश्री २,
११ : २; -ताश्च वापूश्री ३,
४१ : ५; -ते माश्री १, ६, १;
वाश्री १,२,१,२.
व्रतर्- -र्-न्य व्रताश्री १०,१७,८;
वौश्री २९, ११ : २०; माश्री
१०, १०, ११; माश्री २, १,
३, ४; २, १, ४८; वैश्री १२,
१३ : १; -यस्य शोभो ४, १,
१; निम् २,३ : ३८^६; -व्यामि
आश्री १२, ८, २८; -ये काश्री
२५, ४, २७; आपश्री ९, २,
१; ४, १५; वौश्री २९, १० :
२१; माश्री ९, २, २०; वैश्री
२०,३ : १; द्विश्री १५,१,३९.
व्रत-निवृत्ति- -तिः काश्री ८,
७,२२.
व्रत-वेला- -लाम् शोभो ३, ४,
११^२.
व्रत्या(ल्य-स्य)संबन्ध- -वार
काश्री १२,२,१२.
व्रत-चर्मन्- -मन्. व्रत-६.
व्रतति^१- पाठमो २, १,१९४; -तिः
वौश्री २४, २३ : ५; या १,१४;

७) पाठे. ४ २३७ ० १ ६. १) पाठे. ४ ५९७ ० ६. १) व्रत. १) द्रव. > व्रत. १) विप.,
भाष. (इष्टि-). १) प्रयोजनार्थे व्रतः प्र. १) विप. (यजमान-व्रत-प्रथ.) १) तत्रसाध्यावर्धे व्रतः प्र. १) व्रतम् इति
संस्कृत्यः टि. १) ह) क्लाम् (व्र. सप्र. उपवसथे [येमा ७, ६]) इति ०. शोषः १) र) वैष १ ६. १

६,२८^३कृ, -वौ आर ४,८,१५
 व्रत दुष्- प्रथ व्रत- द.
 √वद्, न्द् (श्रुत्वावे), क्वदन्त वा
 ५,१६१.

व्रिन्द^० - न्दिन वा ५, १६१.
 -न्दी अप ४८, ११५१, निष ४,
 २१, वा ५, १५४

व्रिपास्त^० - न्दानि कौस् ३५, १९

व्रि-मश्चन- प्रथ. √श्चन् द.

व्रिमा^० - मा निष ४,२, वा ५,३.

व्रिज- , मासि- √मश् द.

व्रिात^० - पाठभो २, २, १३४, -पठम्

द्राश्री १३, २, ८, माश्री ५, २,

११, कौस् ८९, १; -पठ्वा वीश्री

१०, ५६-९, अप ४८, ७८^८,

निष २, ३^६.

व्रिा^० वा ५, ३, ११३.

व्रिाव-साह^० - द्वा शुभ ३, १२२१.

व्रिातीन- वा ५, ३, २१, -मानाम्

लाश्री ८, ५, १.

व्रिातभृती-, धातिक- व्रत- द

व्रिात्प^० - पठस्य आध्व २, ७, १३१,

१४^१, १५, हिष, -व्य वीश्री

१८, २५ १५^८, २६ २२^०,

अप ४२, २, ११, ४८, १३७^१,

वैप ३, ११, २^१, अथ, -व्यम्

काश्रीसं २८: १२^८, वीश्री १८,

२५ १३^१, १७^१, १३^१, २६-

२१^१, -व्यस्य पठस्य १५, १५,

१८, -व्या: वीश्री १८, २६-५,

८, लाश्री ८, ६, २, ८, निष् ६,

११ २२, ३३, विष २७, २७,

५४, २, वा ५, ३^१, -व्याय वीष

१, ९, १५^१, विष ८२, १६

-व्यानाम् आपश्री २२, ५, ४,

हिश्री १७, २, ३१, लाश्री ८, ६, ७,

निष् ६, ३: १२, -पठ्यान्वाम्

अप ४६, १०, २५, अथ १९,

२३: -व्याय काव १५, ३^१,

-व्ये वीश्री २, ५: १४^१, -व्येन^१

वैश्री २०, २३: ९, आसि ३,

९, ३-११, वीषि २, ७, १०, ३,

७, ५, हिषि २३ ३४, -व्येभ्य

लाश्री ८, ६, २८.

व्रिाव गण- -व्यस्य काश्री २२, ४, ३.

व्रिाव वर्य- -गात् काश्री २२, ४,

२५.

व्रिाव-वर्षा- -व्यां काश्री ८, ६,

२८.

व्रिाव-वा- -वा विष ३७, १६

व्रिाव ईव- -वम् काव १५, १

व्रिाव-वन- -नम् काश्री २२, ५,

१३, वीश्री १८, २५: १०, हिश्री,

-वानि काश्री २२, ४, ९, २४,

लाश्री ८, ६, २८.

व्रिाव-व्यागफय^० -व्ययो अं^२ २:

५^१, ५: १५^१.

व्रिाव-व्याय- -वत् काश्री २२, ४,

२९

व्रिाव-व्याय- -वम् वीश्री १८, २४:

९

व्रिाव-व्योम^१ - मयो लाश्री ६,

४, ८, -मा काश्री ९, ८, २५,

काश्री १४, ६९, १, काश्री २२, ४,

१, आश्री, -मात् वीश्री २२, ५

१०, वैश्री २१, १६-९, लाश्री

६, ४, ७, -मात् काश्री १४, ६९,

२, -मानाम् काश्री १४, ७३,

१, निष् ६, २: १९; -नि वीश्री

२४, ११: ६, २६, ३२: १५,

२६, -मेन काश्री २२, ४, २९,

वीश्री १८, २४: १; २५: २, निष्

६, १२: २७, पाय, -मेतु वेदाश्री

३९, ७, निष् ६, ३: १२, १०,

१०: ८, -मै: काश्रीसं २८:

१२, लाश्री ८, ६, १, २९, गौष

१२, ९

व्रिाव-व्योम-सादरक- -रकेतु

काश्री १२, १, २.

व्रिाव-व्योम-सादरक- -व्य: अं^३ ४:

३८^१.

व्रिाव-व्योम-सादरक- -व्यस्य

वीश्री १८, २५-२.

व्रिाव-व्योम-सादरक- -व्यस्य

वीश्री १८, २५-२.

व्रिाव-व्योम-सादरक- -व्यस्य

वीश्री १८, २५-२.

व्रिाव-व्योम-सादरक- -व्यस्य

वीश्री १८, २५-२.

व्रिाव-व्योम-सादरक- -व्यस्य

वीश्री १८, २५-२.

व्रिाव-व्योम-सादरक- -व्यस्य

वीश्री १८, २५-२.

व्रिाव-व्योम-सादरक- -व्यस्य

वीश्री १८, २५-२.

व्रिाव-व्योम-सादरक- -व्यस्य

वीश्री १८, २५-२.

व्रिाव-व्योम-सादरक- -व्यस्य

वीश्री १८, २५-२.

व्रिाव-व्योम-सादरक- -व्यस्य

वीश्री १८, २५-२.

व्रिाव-व्योम-सादरक- -व्यस्य

d) वा ५, १५ परास्य द । e) वैप १ द । f) पाठ १ प्रपा इति दारित (तु कौष् १२, ९) ।
 d) = मनुष्य- । e) = उत्तर-रहित- । f) = जाति-विशेष- । g) = शाल्यधर्म- । h) = उत्सव-जीवित-
 । i) विष । j) = कण्ठ-द्रव्य (वी १५, १६) । k) = व्यो इति पाठ- । l) वनि. शोध ।
 m) = पञ्च-विशेष- । n) = मज्ज- । o) वा ५, १६ परास्य द । p) तु पाठम् ।

५:८^३; ९; भाथी; -हिम्पः
 षंभापथी ५, १९, ४; ६, ३१,
 १३; वीथी २८, ५; ९^१;
 भाथी; -हिम् वाधुथी ४, १९ :
 २९; ५२:२; वैथु १, ८:१;
 अथ ६, १४०^१; -हिपु वीथी
 ५, ११:१२; ७, २:६x४;
 वैथी; -हीणाम् भाथी २,६,५;
 काथी ४, ६, २; आपथी २,
 ११, १^१; ६, २९, ३; ७x४;
 वीथी; -हीम् वाथी ४, ३, ४;
 ६; काथी.
 वैद- पा ४, ३, १३६; १५०.
 वैद्व- पा ५, २, २.
 वीथिक- पा ५, २, ११६; ११७.
 वीथि-कंसौ(स-ओ)द्वन्- -वम् प्राप
 ४, ३, १.
 वीथि-वन्- -वी: वीथि १, १, २६.
 वीथि-कांसौ(स-ओ)द्वन्- -वम्
 गोप ४, ६, १२.
 वीथि-काल- -लथो: पा ३, १,
 १४८.
 वीथि-तण्डुल- -लै: वामिप २, ४,
 ६:४.
 वीथि-तुप- -थै: आपथी १६, ४, १;
 वैथी १८, १: ६०; हिथी ११,
 १, ४४.
 वीथि-धर्म- -र्म: हिथी ३, ८, ४४.
 वीथिन्- पा ५, २, ११६; ११७.
 वीथि-नीवार-इयामाक-व्य-
 -वानाम् वैथ ४, २: १.
 वीथि-विट- -थानि वीथी ९, १७:
 २६; २८, १३:७; वीथ १, १०, ४.
 वीथि-प्रभृति- -ति वीथी २९,
 १०: १४; प्राप १, ५, ३९.
 वीथि-मव- पा ५, २, १००; ११६;

११७; -मत् आपथी १, ७, ६;
 १७, ५; वैथी ४, ४: २; हिथी
 १, ५, ७; २, ७, १०.
 वीथि-मय- पा ४, ३, १४८; -यम्
 आपथी ५, ४, १५^२; ७, २२, ३;
 काठथी.
 वीथि-मुष्टि- -ष्टिम् गोप ४, २, ९.
 वीथि-मेध- -धेन वाधुथी ४, १९:
 ३२.
 वीथि-यव- -वम् कौत् ४३, ६;
 श्राा १९, १; -वयो: काथी ७,
 ४, २१; वाधुथी ४, १०८: १२;
 पाथ; -या: आपथी १६, १९,
 १३; वाधुथी २, ११: १३;
 वैथ १, ११: ६; आपथ २,
 १६, २३; श्राा १२, ४; -वान्
 आपथी १३, ५, ४^१; १४, २४,
 १३; दाथी ५, ४, २७; लाथी;
 -वानाम् आपथी २, ९, १२; राथी
 ३, १२, ३; काथी १५, ७, ३०; कौप;
 -वान्याम् कौत् ४९, १४; -वै: वीथ
 वीथी २४, ९: २; -वै: कौत्
 ३, १, २; राथि ३, १, ३; गोप २,
 ९, ६; कौत्; -वौ वीथी २८,
 १३: १; माथी ५, २, १४,
 ११; वाधुथी ४, १९: २८; ७४:
 १०; १०८: १३; कौप.
 वीथि-यव-पाक- -वी विथ
 ७६, १.
 वीथि-यव-ग (व >) जी- -वी:
 प्राप २, ८, १५, -हीमि: प्राप
 १, ११, ३: २, ९, ७; ४, ८, ७.
 वीथि-यव-होम- -मम् गोप ४, ५,
 १७; -मौ गोप ४, ८, ८.
 वीथि-यव-मो(म-उ)वकाक-
 तिल-विषयु-इयामाक- -या:

कौत् ८, २०.
 वीथि-यव-तण्डुल- -लानाम् राप
 १, ३, १०.
 वीथि-यव-तिल- -लाम् कौत् ७,
 ५; -लै: आप १, ९, ६.
 वीथि-यव-वइवा(हु-वा)ज्य-यव-
 कपाल-पत्नी-संयन्- -यानि
 आपथ २, २३, १०; हिथ २, ५,
 १६३.
 वीथि-यव-पुष्प-सर्प- -यानि
 आमिप २, ३, १, ९; वैथ १, ६: ८.
 वीथि-यव-भाप-तिल- -लानाम्
 प्राप १, १७, २.
 वीथि-यव-इयामाक- -कान् आपथी
 १९, ५, ७; हिथी २३, १, ६.
 वीथि-राति- -रिथु कौत् ६१, ८.
 वीथिल- पा ५, २, १००; ११७.
 वीथि-वल्ग- -वल्गयो: पावा ३, २,
 २४.
 वीथि-वेला- -लवानाम् लाथी ८, ३,
 ७.
 वीथि-श्राव- -वानि हिथ २, १४,
 ३.
 वीथि-इयामाक-यव- -वानाम् आपथी
 २, ९, १.
 वीथि-इयामाकौ(क-ओ)द्वन्- -वयो:
 वाथी १९, १, २०.
 वीथि-सवतु- -वतुमि: वाथी ३, २,
 ७, ६३.
 वीथि-स्तम्ब- -म्यम् आपथी ६,
 ३०, १४.
 वीथि(दि-अ)र- -यम् वाथी ४,
 ११, ८.
 वीथि(दि-आ)प्रय- -प्रय वीथी
 ३, १२: २६; २८, १२:
 १३; १३; -नेव वीथी १२,

०) = [संवत्सरमित्तवीहीणाम्] मोदन-१ कस. > पथ. । परस्परं पार्श्व. । ०) = कनिषव- (इत्यप्यु-
 प्रसिद्धान्य-) इति दारिद्रः । ०) दस. > पथ. ।

१ १३, १५, ११ १०, वाथी
 १, २, ४, १८, आमिष्ट
 गीष्ठाप्रत्यय वत् वैथी ८, २: १
 गीष्ठा(दि आ)ग्य-पान्य- -य वीत्
 १२, ७
 गीष्ठा(दि आ)दि- -दि क्य ३, ५,
 ३, -दीन् वैथी ११, १ ४
 गीष्ठादि-सप्त-पान्य- -न्यै अप
 ११, १, १५
 गीष्ठा(दि ष)रं- रा थापथी २२,
 ४, ८, ताथी ८, ३, ४
 गीष्ठा(दि-ञो)दन- -नम् वैथी १२,
 ६ ११६^३

श्रीहि मत्- श्रीहि- द
 श्रीहि मत्- -मत् वीथी ३० १
 ✓सुम् पाषा तुदा पर स्वरणे
 ✓सुम्, स्- पाषा तुदा पर हिंसा
 याम्
 श्रीरो- शीनाम् वाथी १२, ५,
 १९, तुम् १, ५३६
 प्रोह- प्रोहय- श्रीहि- द
 श्रीच्छ्री (=✓ष्ठी, ष्ठी) पाषा
 मया पर वरण, गतीं धरणे च,
 ष्ठीनाति आपथी १४, १२ ६,
 दिथी १०, ६, ६, भाषि ९३,
 ष्ठीनात् थापथी १४, १२,
 ६, दिथी १०, ६, ६
 ष्ठीनाति आपथी १४, १२, ६,
 दिथी १०, ६, ६

श

श- > शकार- २ ऋषा १, ४२,
 ४, ४४४, तैषा ५, ४, २४,
 शैषि ३१६ -रन् तैषा ५ २०.

-रस्य शीच २, १७, -रे शुषा
 ४, १७, शीच २, १०, वाशि २,
 ३८, -रेण शुषा ३, ५४
 शकार चकारवर्ग- -र्यथो ऋषा
 ४, ९
 शकार पर- -रे ऋषा ४, १८
 शकार प्रतिषेध- -ध पावा १,
 १, १०.
 शकार लकार- -र्यथो शीच २,
 १३
 शकार-लोप- प. उस् ६, ५
 शकार-सकार-न्यवेत- -रम्
 ऋषा ५, ४४
 शकारा(र-आ)दि- -दय उस्
 १, ५, -दि शैषि ३१८, -दौ
 ऋषा २, ३, ८, १२
 शकारा(र आ)मति- -सि उस्
 ६, २
 श चञ-पर- र तैषा ५, २२
 श च-ज- -आ शुषा ४ १५८
 श-य स- -सा अप ४७, ९, १७,
 शीच ३, ३२, शैषि, -सान्
 माशि ५, ४, -सेषु शुषा ३,
 १०, शीच २, ६, ९, शैषि,
 -सै माशि २, ९६, माशि २,
 २, ९
 शपत् प्रथम- -य माशि २,
 ५, ९^७
 शपत् प्रथम- -मा माशि ११,
 ४.
 श-प-स विसर्जनीय द्विष्ठागुलीयो
 (य-उ)पष्ठातीय- -वा भाषि
 ४, २
 श-य-स ह- -हा याशि २, ७३

श-य-स-ह-ना(र-आ)दि- -दौ माशि
 २, ६, ६
 श-य-स-हो(ह-ऊ)ध्व- -ध्वे माशि
 १५
 श-स चटवर्गीय- -वेपु तैषा १३,
 १५
 श स-ञ- -सै शीच ३ ९३
 शा(स-आ)दि- -दय शैषि २८,
 आशि ४ ८, -दि शैषि ३१५,
 -दि अप ४७, ९, ९
 शंय-, शयु-, श-योस् प्रथ
 रम् ६
 शंय- पाठ ४, ९४
 शयद् पाग १, ४, ५७.
 शं यत्- शम् ८
 ✓शास्, शास् पाषा भा पर लुठी,
 शासति वाथी ७, १९, ५, २३,
 २१, २४४, काथी, आपम १,
 १७, १०^१, निष ३, १४^१, वा
 ७ २३, शासति वाथी ४,
 २६ २३, शासति काथी ५,
 १०, ८, ७, ६, शोथी, पृथंसति
 आपम १, १३, १०, वीष् ४, ९,
 ९, हिष् १, १६, १८, शासाय
 वेताथी २०, १९, शासत् श्रे
 २ ४२, शासन् आथी ५, ९, ११,
 कस, > सा आथी ८, ७, २२^१,
 शोथी १२ ३, ६^१, काथी १८,
 ३, २^१, आपथी, वाथी ४,
 ८२ ४^{१०}, ९२ १४^{१०},
 श्रीशोसा^१ काथी ५, ९, ५,
 आपथी १२, २७, १२^१,
 १७, वीथी, शासत् वीथी ६,
 १६ १४^१, सु ११, ५, शासाय

a) शोद इति पाठः । ब) व्यप । c) इ DFG । d) वेप १ द । e) वाथी
 वेप १, २६८, ६ द । f) वा ७, १, ८० पराष्ट ३ । g) = षठ् विशेष । h) श्लो प्र इति सांस ।
 i) इ पाणि [वीमे ३] । j) दुर्वैथी इति दुर्गा ३ पाणि प्रथ ३ । k) पणि वेप २ शुष्पादि ऋ १०, ८५, २५ टि द ।
 l) वा अर्वांश इति । m) पाठः १ शंसत् (वेदि प्रथ ५) समाप्तोः ।

वा ४, १६^१; शंसवोम् वैताश्री
 २०, १५; १०; शंसोसाय काश्री
 ९, १३, २९; १९, ६, २६;
 शंसोसाये काठश्री १४३; शंसोसावो ३
 शाश्री ७, ९, १; १९, ६; १७,
 १७, १४; शंसोसावो माश्री २,
 ४, २, २४^१; २६; शंसोसावोम्
 आश्री ५, ३, १; १४, ३; आपश्री
 १२, २७, १२; वाधूश्री;
 शंसोसावो ३म् माश्री २, ४, २,
 २४; शंसोसावोम् वैताश्री २०,
 १८; शंसोसावो ३ शश्री ८,
 ३, ५; शंसोसावोम् आश्री ५,
 १८, ४; शंसत् आश्री ५, ९, १;
 २०; १०, ४; ८x५; शाश्री;
 वैश्री २१, १२; ८^b; हिश्री १५,
 ६, ३५^b; शंसैयुः आश्री ६, ६,
 ५; ८, २, २x५; शश्री १३,
 १०, ५.
 शंसोव वीश्री २६, ५; २; शंसो-
 मदि माश्री २, ३, ७, ५^१.
 शंसत् वृदे ३, १५०, ४, १३५, ५,
 २९x५; शशा ११, ६५; शंसवतुः
 वृदे ५, १४०; शशंसिरे
 श्य ६८, १, २; शंसिप्यति आश्री
 ५, ९, १^२; शंसिप्यसी ३ वीश्री
 ७, १७; १; शंसिप्यमि शश्री
 १७, १४, ३; शंसिप्यत् आश्री ५,
 ९, १; शाश्री ७, ९, १; वीश्री १०,
 ४९; २०.
 शंसवते आपश्री ३, ११, २^१;
 २२, २, २; वीश्री १७, १०; ९;
 माश्री; शंसवते निष् ५, ३; ९;
 शंसवत् शश्री ९, २, १०.
 शंसत्- -सः आश्री ३, ७, १०;

आपश्री ६, १७, १२; हिश्री ६, ६,
 १६; -सम् आपश्री १४, २९, ३;
 २४, १३, ३; वीश्री ३, २८; १६;
 ९, ७; १४; हिश्री १५, ७, १६;
 अप्राय ५, ६.
 शंसत्- -सम् आपश्री १४, १७,
 १^१; हिश्री १५, ५, १^१; निष्
 ३, १; १९; वृदे ४, १०.
 शंसत्- -ये पाठ ३, १३, ३.
 शंसन- -नम् आश्री ६, ५, १५;
 -नात् वैश्रीका १७९; -ने
 वैश्रीका ९०.
 शंसना(न-अ)नगर- -रम्
 वैश्रीका १८६.
 शंसनीय- -न्यः वा १०, ३९;
 -यम् वा ४, २४.
 शंसम् शश्री १८, १६, ९.
 शंसमान- -नः वा ६, ८.
 शंसितु- -तारम् आश्री २, ६, ११^१;
 वा ६, ११.
 शंसिप्यत्- -प्यम् आश्री ५, १८, ३;
 ६, ५, २; शाश्री ७, ९, १;
 -न्यम् आश्री ५, २, १८^१.
 शंसव्य- -व्यो वैताश्री २२, १०.
 शंसत्- पाठ २, १४; वा ७, २, ३४;
 -श्रुता तैशा १६, ५; मादि ६१.
 शंसत्- वा ६, १, २१४; पावा ३,
 १, १०९६; -श्रीस्य काश्री २,
 ५, ३; शाश्री २, १४, ४; १५, २;
 आपश्री; -रवः काष्ठ ७, ३७;
 -रम् आश्री ७, ८, ३^१.
 शंसत्, ता- -स्वया शश्री ११, २,
 १४; १८, १, १०; २०, ७; -स्ता
 शश्री १८, १४, ९; वाधूश्री ३,
 ५८; ११^१; विष ७८, ५०; -स्ताः

वृत् ३, १; १२; -स्तानि वैश्री
 १४, १५; २; -स्तायाम् शाश्री
 १८, २१, १; हिश्री ९, ४, ४०;
 -स्ते शाश्री १७, १०, ३; १७;
 वैश्री १५; १; १७; १; १९;
 १; -रवैः वृत् ६, १२; ११.
 शंसवो(स्त-उ)न्य- -नधरय
 आश्री ६, १२, २; ११; शाश्री
 ८, ८, ६; वीश्री ८, १६; ११;
 १७; १; १७; २६, ३१; १६;
 वैश्री २०; ११.
 शंसत्- -स्ता वाधूश्री ४, ८९;
 ७; १५.
 शंसत्- -रम् आश्री ५, १४, २;
 शाश्री ८, ७, १९; ९, २०, ५x५;
 आपश्री; -रम् ७-रम् आपश्री
 १२, २९, ११; १३, ८, १३; १६,
 ६; -सत्य काश्री २५, ४, २३;
 आपश्री १२, १७, १७^१; वीश्री
 १४, ९; २४; २५^१; ३६^१x५;
 वैश्री; -स्त्रायाम् आश्री ७, १,
 ७; शाश्री ७, १०, २; ९, १,
 ८; १२, २, ३^१x५; वीश्री;
 -स्तानि आश्री ५, १०, ११; २१;
 शाश्री १४, १९, ३; २५, ५, ३;
 आपश्री; -स्त्राय आश्री ५, १०,
 १; अप्राय ६, ५; -स्त्राय वीश्री
 ११, ८; १६; १२, १२; १३;
 -ये आश्री ७, १, १२; ५, १९;
 आपश्री ९, ११, १; वीश्री; -स्त्रेण
 पाठश्री १४४; -स्त्रेण आश्री १,
 २, २६; शाश्री ७, २५, १; वैताश्री
 २०, ११; -स्त्रेः शाश्री १५, ५,
 ६; निष् ३, १; २४.
 शंस-काठ- -स्ते काश्री २२, २, ३.

a) शंसु इति पाठः इति. शोषः ।
 c) वैव १ द. । d) पाणे. वैव १. २६५१ दृ द. ।
 पाणे. । e) तु. पावा. । f) वस. ।
 b) सवा. आपश्री १४, २४, २ वतुमुदात् इति पाणे. ।
 g) भावे मयः प्र. उत्त. (पाठ ३, ११२) । f) परपरं

शस्त्र प्रतिगद- न आपधौ १२,
२८,१, १३,८,३,६.
शस्त्र-भक्ति- -क्ति बौधौ २५,
२१, १; २.
शस्त्र-याज्या- -याया. आपधौ
१४, १०, ८, वैताधौ २२, ४,
-याया आपधौ ५, ५, २०, शांश्री
७, ९, ७.
शस्त्र-याज्या-मिगदा (द-अ) लुव-
घना (न-अ) मिहवत-सस्तवत-
-नानि आपधौ १, ३, २३.
शस्त्र-यत् वैताधौ १४, १; मीसु
१०, ४, १७
शस्त्र-यत्- -वताम् मीसु ११, ३,
४८, -वन्तम् वैश्री १५ ३५ :
११, १६, १०, १५, ९, द्विधौ
८, ८, २१, ९, २, २४, ३, ५८.
शस्त्र-यत्- -रा आपधौ ५, ९, ४
शस्त्रा (अ-आ) दि- -दियु आपधौ
५, ९, ३, १०, १८, ४, -श्री शोश्री
७, ९, १, १९, ६, ८, ३, ५
शस्त्रा (अ-अ) लुवघना- -नवो
शोश्री ६, १, २५, शाश्री ५, १, १,
१२
शस्त्रा (अ-अ) लुवघना (न-अ) मिह-
वन-सस्तवत- -नानि आपधौ ६,
१०, १२.
शस्त्रा (अ-अ) ल- -वम् वैताधौ
२१, ४, -वन्ते आपधौ ५, ९, १०,
६, ११, ११, ११, १२, ६, ११,
१२, ५, ८, वैताधौ २०, २०
१ शक्ति- -निय आपधौ ५,
१०, १०
शाश्री (अ-अ) पा- -वा बौधौ

१४, ५ : ३४
शशोन्व^०- -वयम् वैताधौ २१,
५.
शास्त्रा आपधौ ५, ९, २६, ४, ४; शांश्री
१ शस्य- पावा ३, १, १०९, -स्यम्
आश्री ६, ३, २, ९, १, ३, १४, ५,
१५, ७, ३३, ४, आपधौ, -स्ये
आश्री ९, ७, २१
शस्यो (स्य-अ) शय- -य आश्री
६, ४, १, ९, १०, १७.
शास्यमान, ना- -नम् आपधौ ५,
१७, ४, द्विधौ ३, ४, ४८, -ना
श्रुत २, ३, ३६, -नायाम्
आश्री १३, १६, ३, द्विधौ ८,
१, ५७, ९, ३, ५९, ४, -नासु
अप्राय ६, ७, -ने आपधौ १०, ६,
४, ७, ६, आपधौ १४, २४, १,
बौधौ २४, ३९, ६, ४, ४; माश्री
शंसकला (> ल/कृ पा) पाग
१, ४, ६, १.
शंसित (> शासित्य- > श्याय-
[न-अ] पा. यक) पाग ४,
१, १०५, १८
शंसित-विधा मित्रा (न-अ) श-
-यानाम् वैध ४, ८, ५
√शसु^० पाथा दिवा. वष सपणे, स्वा
पद. शशी, शंसिध, > शधी
शाश्री १२, ४, १९, १६, २१,
२६, आपधौ ३, १२, १, माश्री,
अप ४८, १२, निप ३, १९, ६,
अप्रा ७, ५३, शंसाम् शांश्री
१२, १, ३.
शातोति द्विधौ ३, ३, ६०, शोध
४, ८, ७, निप ९७, ७, वा ९,

३, शंसुवन्ति वा १२, १२,
शाकवाभि कौसु ८९, १७, १,
शंसवाम आपधौ २४, १३, ३,
बौधौ ३, २८ : १६, कौसु ५,
१२, अशंसुवन्तु निप ३, १ :
१६, १, वा ५, २५, सवन्तुवाप
शांश्री ७, ६, ८, आपधौ १२, ८,
१०, २२, ३, १८, बौधौ
शंसोयम् आश्री ४, १२, २६, ८,
१४, ६, १, शांश्री
शाशाक अश्र ४, १८, शिशुः
कुंवा ५, २५, १२, ३२; अशसुव
निसु ७, २ : १८, वृदे ६, १२३,
या १, ८, १, शंसकम् शांश्री
४, १२, १०, बौधौ १, २१ ४, ५,
३, २१ - ८, ४, माश्री.
शस्यते वृदे ३, ११०, कौसि
५८, ६५, शस्येत् माश्री १, ७,
४, ३.
शस- -नः सु ३, ५, २७, १, अप
२, १, २, विप २०, १९, ४६,
शोध २१, १९, -का शध २५
७.
शस-न (>) रा- -ना कप १, ८,
८.
शसि^०- पाग ४, १, ४५, १,
८६, ४, १२, -अय. अप ७०,
७, ८, ७१, १, ५, -क्ति आपधौ
१६, २९, २१, वैश्री १८, २०,
३०, १, द्विधौ ११, ८, ४, १, सु
११, ६, काप ३५, ११, अप २०,
२, ५, ४८, ६१, १, निप २,
११, १, -क्ति. वा ७, २८, १, १,
-निसु विप ५४, १४; -श्री

क) वष । ढ) पाठ ? शास्त्रा, श इति शिपद शोध (स ०) । च) सु पाति । सप्तशत्या इति
माहवा. प्रथ. । द) = शसि विशेष- । ए) पाति. । संशित- इति माहवा. प्रथ । ए) वा १, ४, ८, ५, १३, ६, ३२,
९, १ वा ३, ६५, ७, ४, ५४ वावा १, ३, २१ पराश्रुट ह । ज) वा शस्यतावो वृति । ङ) पाणे. वैप १ मे ६,
१९, ४ दि. ह । ङ) वैप १ निर्दिष्टानां एतावन्त- ह. । निशेप दि. ह. । इ) = शस्य विशेष- । ज) धर्म-नाम- ।

वौशी ३, ३० १९५, -सौ पा
३, २, ५४, -नया वौशी ९, ४: ९, १०, ५ १२, ७ ११, वैशी १८, १-६८५, वैश, -शक्यै
आपथी १६, २९, ३, वौशी ३,
२७ २, वाधुशी ४, १०३: १२,
वैशी १८, २०-३१, द्विशी ११,
८, ४

शकी- पा ४, १, ४५

शाकिर- पा ४, ४, १२

शाकीक- पा ४, ४, ५९

शकि-ग्रह- पागा ३, २, ९

शकि-उद- द्वा अण ५०, ५, २

शकि-नक्ष (ः) आमि २, ७,
१०: ८, अण २, १, १४, ३, १, ४,
१६, ९, ४, अण

शकि घर- र पाट २, २३

शकि-ग्रहागम- ज्ञेन वृदे ८,
१०

शकि-मन्- पा ४, ३, ८६,

-मात् वीण ३, १२, ३, शय
२४४, वीण १, ५ ८५

शकिमन्-त्वा- न्नाम् वृदे ७,
६०.

शकि युक्त- क अण ६७, ८,
३

शकि-युत- नम् वैश ४, ११
१५.

शकि विषय- जे वैशी १४, ४
४, आपण ३, १४, आपण, -नेण
आपण २, ११, १०, १२, १, द्विष
२, २, १५^०, ४, ३२

शकि-संनाह- हम् अण २०,
२, ५

शकि-सपन्न- न्नात् विष ३, ७१

शकि (>) की-वत्- वन्त
शुभ ३, ९, ७५.

शक्त्य (कि अ) इतुस-नवाहा-

-कानाम् अण ६८, २, १३.

शक्तयश्चि-आ-अर- र अण
५४, २, २

शक्ति- पाग ४, १, १०५, -कि

वौशी १७ १५, अण २, ७,
३२, ९, ९७, १०८^६, साअ १,
२५९, ५८३, अण २०, ७९,
-किना वृदे ४, ११२, -के
चाअ ३८ २^{१०}, ४०-७.

शक्त्य- पा ४, १, १०५,

-०क्य आशी २२, १२, ६, १५,
२, आपथी २४, १०, ६, ८,
वौशी ४८ १४, द्विशी २१,
३, १४^१, वैष ४, ६, १, -क्य.
आशी १२, १२, ६, आपथी २३,
११, १४, द्विशी १८, ४, १०१^१,
अण २, १, ६५, ५, २९, अण ३,
१६९, साअ

शक्त्य-सामन्- न्

लाश्री ७, ४, १

शक्त्यसाम-शैधातिय-

-ययो लाश्री ७, ४, २

शक्त्याना-वृद्धि-सव-

स्त- रम् शाशी १३, २८, ६,
काशी २४, ५ २०, आपथी २३,
११, ११, द्विशी १८, ४, १०२^०,
निम् १०, ९ १०.

शक्त्याना-वृद्धि-सवि-

क- कम् आशी १२, ५, १६

शक्ति-वत् आपथी २४, १०, ६,

८, वौशी ४८. १५, द्विशी

२१, ३, १४^६, वैष ४, ६, १.

शशके-सामन्- न् आपथी ५,
१०, ११

शमन्- पाठ ४, १४७, -श्वम

अण ४८, ६१, निप २, १, -श्वमन्

वौशी ६, १९: २, वाधुशी ४,
५४: ७, ८, चाअ २ १२,
-श्वमवा माथी २, २, १, २^१,
-श्वमने माथी २, २, १, २,
वैताथी १३, १६, -वसा चाअ
२ १२

शक्य, क्य- पा ३, १, १९, -क्य

अण १४, ६४, -क्यम् अण ६१,
१, २५ वाप २, १२, वीष १,
२, ५०, २, २, अण, वृदे १, ५९,
२६, ३, २९, ६, १४०, आजो
५, १२, मीर १०, ३, १०, -क्या
शाश्री १, १७, ८, विष २०, २३,
वृदे १, ८०, -क्ये द्विशी १५,
८, ३१

शक्य-व- न्नात् मीर ६, ३,
४२

शक्य-पुरदायकृतये (त्-र)-

कार्यसाम्यायकृति- विम्व
काशी १, ७, २.

शक्य-क-अ-य- न् वा ६, १,
८१, ७, १, ६८

शक्य- पाठ २, ११, -०क आपथी

१६, २४, ४५, वाधुशी ४, ५ ८,
९, १२, १५, वैशी, सु २४,
१, २५ ६, २७, ३, ५, २८,
५, ३०, २, -क, आशी २, १०,
१६x, शाश्री, जैष २, ९:

a) पागे वृ १०२९ d) । b) वत् । c) वत् अण = आहति- । d) = शक्ति विरेप- ।
e) शके इति पाठ ? यनि शोष । f) शक्य इति पाठ ? यनि शोष (व आपथी) । g) = क्षम-विरेप- ।
h) शक्यवा इति पाठ ? यनि शोष (व आपथी) । i) = शक्यम्- (व वैष १) । j) पागे वैष १
शक्यम् वा ५, २, १ वि द । k) विष, माप (इन्-), वैष १६ ।
वैष ४ प्र ३०

१५^०; -कम् वीथी २७,६:८^०;
साष्ट २, ११, १५^०; श्यप;
-कस्य हृदे ७,२१; ३०; -०म्
आथी ४,२,३^०; -माथ ५^०वीथी
१८, २८: ७; ११; १४; १५; २१.
शाक^० -के विप ७८,
२३; -कै: विप ९०,३.

शाक-वासव^० -वयो:

श्यां ६,२.
शाक-जातवेदन्- -दोभ्याम् वीथी
१८,२८: ११^०.
शाक-वेश- -श: जेष २,९: २०;
शाक-शैवत^० -तम् अर्था ४,१.
शाक-वज्र-पताका- -कानाम्
शप ६४,६,८.
शाक-व्यज-प्रयजन- -देशंष ४६.
शाक-नियुक्- -सुदम्ब्याम् वीथी
१८,२८: ८^०.
शाक-वद- -दम् विप ५९,३०.
शाक-मतर- -रै: या १४, ३०.
शाक-लोक- -कम् अप ५,५, ७,
शाकलोक-भास्- -माक् विप
५,१९६.
शाक-सम- -श: शप ७०^०, २३,
११.
शाका (क-आ) युष- > युष-
निमा (म-आ) युष^० -या
शप ६१, १,२२.
शाकायुष-सौवेप-विशुक्लुक्-
निरोहण^० -शम् अप ६४,१,५.
शाकायुषा(म-आ)श्व- -श्वे
विप ९९,९.
शाके(क-द) म-युग्म- -संकाश-

-शो विप १,२४.
शाकवन्^० - पाठ ४, ११३; -कप्ले
काथी ८,१,१५^०.
शाकर^० -> शाकरी (समा.)^० -री
काथी ४,१२,२^०; आपथी ४,
१३,४^०; वीथी १३,१४: १०;
१४, १०: ५; १२××; माथी;
वाच्युथी ३,१२: ९^०; ४,३१: २^०;
३६××; द्विथी २२,३,३; निस् १,
५: ५; ३,१३: १३; १८: ३४;
शप ४८, ८१^०; शम २, ४,
२७, ६,३१××; सुख ४, १०८;
शमम् २; श्य ४, १०;
११××; पृथिवि २, ४^०; ११^०;
शम १६,८१; उनिष् २: १७;
-पृरी: आपथी ४,५: ६,१××;
वीथी; -पृरी: आपथी ४,५,६;
माथी ४,७,५; द्विथी ६, २, ८;
-रीणाम् लाथी ९,६, २९; १०,
२,६; निष् ६, १०: १८; शाष्ट;
-रीभि: लाथी १०, २, ११^०;
शुस् ३,७: ३,९; -रीभ्य: निष्
४, १: २५; २९; ६, ९: ५;
वामिष् १, ५, २: १९; -रीषु
द्विथी १७, २, ५८; लाथी १०,
२, १; निस् २, १३: ३१; हृदे
१, १३१; या १, ८^०कुं; -री:
शुस् २, १४: ४××; निष्,
या १, ८कुं; उनिष् ७: ४६^०;
-वीं शम २,६, १५; श्य १२,
१; १७,१; १९,३१.
शाकर^० - पाठ ५, १,
१२८; -पृरी आपथी १०, ९,

१^०; वीथी १२,८: ७; द्विथी ७,
१,४६^०; -पृरी: आपथी ४,१२,१;
आपथी २, १०, ३; वीथी १,
१४: २७,१४,१०: ५४; माथी;
-रम् आथी ७,१२, १०; वीथी
१८, १५: ६; माथी ५, २, ३,
१८^०; लाथी -७, ३, ३; ५,
९; निष्; कौष्ट २, ७, १६^०;
शाष्ट २,११, ११^०; -रस्य लाथी
७,६, ६; ९,११; वाम ४: ३^०;
१४: १^०; -रा: वीथी १४,
१०: १२; दाथी ९, १, १६^०;
लाथी ३,५, १५^०; -रामि लाथी
७,५, ९^०; निष् ३, १३: ३; ९;
१२; -पृराष शाथी २, २७, १;
वाथी ८, १, १५; वीथी ६, १९:
२; १३, २९: ६; १७; माथी;
-रे लाथी ७, ३, ९; -पृरेण
आपथी ४, ५, ६; माथी ४, ७, ५;
द्विथी ६, २, ८.

शाकरी->री-

व(मं)>मां^० -मां अथ ४,
२९^०.

शाकर-गर्भ,मां^०-

-भिम् वीथी १५, ७, ३; -मां
श्य १,३०; ४,२९; ११,१,५^०;
१३,१.

शाकर-पुष्ट^० -ठ:

वाथी ३, २, १, ५७; ४,२,१२,
-छम् शाथी १०,६,१.

शाकर-अथम- -भेपु

लाथी ७,५,११.

शाकर-महापाह्क-

a) = दन्- [शुक्रग्रह-देवता-]। b) पति. शैव १ शुक्र शी ३,१२,६ डि. द.। c) = [शक्रदेवत-]
वेष्टा-मशन-। d) शास्त्रवेत्ताथ: प्र.। e) = नखन-श्रम-। f) विप. (भेक-वारण-).। g) दल.।
h) शैव १ द.। i) पति. शैव १ शुक्रमन् का ५,२,१ डि. द.। j) = सपा. मं ३,१६,८ (१) ४.
५,१२,४ शु शुक्ररी: इति पामे.। k) = पाहु-। l) = मो-। m) = मन्-विशेष-। n) श्यप.। o) मन्.।
p) कश्यप शाकरी इति प्र., शा.।

-कौ क्रम २, १००, १३३.
 शाबर-रैवत- ने
 शाश्री १०, ४, ७; लाश्री ३, १२,
 ६; तैषा ४, ११.
 शाकर-वर्ण^३- -र्णम्
 लाश्री ७, २, १; १०, ५, ४; निम्
 ६, ९; ५; ७, १; १६; १०, ३;
 ४२; -र्णस्य लाश्री ७, २, ६;
 निम् ६, १० = १८.
 शाबर-रैवत-रैवत-
 -तानि आश्री ८, ७, ५.
 शाकर-सामन्^४-
 -मा^० वीथी १६, ४ = ६; हिथी
 १६, २, २८; -मानम्^० आश्री
 २३, ७, ८; वीथी १६, ३४ = १२.
 शाकरा(र-ञ)विज्ञा-
 त-ग(र्भे>)र्मा- -र्मा अत्र
 १२, १.
 शाकरा(र-ञ)विज्ञा-
 त-ग(र्भे>)र्मा- -र्मा अत्र
 १३, ३.
 शाकर्य- पा ५, १,
 १२८.
 शाकरो-म(र्भे>)र्मा^०- -र्मा
 अत्र ३, ११; १२; ६, ४७, ९, २.
 शाकरी-र-क- -रयम् या १,
 ८१.
 शाकरी-वृष्ट^०- -ष्ठः लाश्री १०,
 १३, ११.
 शाकरी-प्रवाद- -दः निम् २,
 १३ = ३४.
 शाकरी(री-ञ)विज्ञा- -यी

अश्रम २, ३; अश्रम १०, ६.
 शाकरी(री-ञ)ग- -गम्
 अश्रम २, ५, २; ६, २; १४; ४९.
 शाकरी(री-ञ)वसान- -गम्
 निम् ४, २ = ३.
 शाकरी(री-ञ)वृष्ट(दि-ञ)-
 वृष्टि-वृष्टि- -वृष्टः अश्रम २.
 शाकरी- -कः लाश्री १८, १, ७.
 शाकरी- -कमना लाश्री १८, १, ७.
 शाकरी(वप्रा.)^०- -कः वृद्धे ४, ४११;
 -कम् अत्र ४८, ७५१^०; -काय
 वेष्ट २, ६ = १५१^०; -वेन
 आश्री १६, ५, ६.
 शाकरी- -यम् अश्रम २, १, १६४.
 शाकरी(क-र)घ^०- -घः लाश्री ९,
 १३, १६; -घे आश्री ९, ९,
 १२३.
 शाकरी- पा ४, १, १०५^०; ३, ९२;
 ५, ४, २८^०; पादाग ४, १, १७२;
 -का अत्र ५७, २, ५; -कार
 अत्र ५०, १, ६.
 शाकरी- पा ५, ४, ३८.
 शाकरी- पा ४, १, १०५^०; ३, ९२.
 शाकरी-तुलार-वाट्टीक- -काः
 अत्र ५१, ३, ३.
 शाकरी- पा ४, ८१; पाय २, ४,
 ३१; ४, २, ४९; ८०^०; -टम्
 लाश्री ५, ६, ४; आश्री १, ७,
 ६; १७, ५४४; अश्री; -उय
 लाश्री १०, १९, ३; हिथी ७,
 ३, १; अत्र १, १२, १; वृद्धे
 ६, १०५; -टात् आश्री १,

७, ७; वीथी २०, ५ = ३०;
 आश्री १, ७, ३; ८, १५, १३;
 या ११, ४७; पा ४, ४, ८०;
 -टानि आश्री ६, ६, ५; -उय
 आश्री १, १७, ४; २०, २७, ९;
 -डे लाश्री ५, ६, १; आश्री; -डेन
 लाश्री २०, १६, ३; वीथी २०, २३;
 २; हिथी ७, २, ३६; हिथि २२;
 १२.
 शाकरी- पा ४, ४, ८०;
 शाकरी- -टीम् निम् ३, ८;
 २२.
 शाकरी- -डे आश्री १०, २७,
 १०.
 शाकरी-व्याज्ञा- -यः आश्री
 १८, २०, ६; हिथी १३, ६, ४७.
 शाकरी-मन्त्र- -न्त्राः वीथी २५,
 ३१ = २; २६, ३३ = ३; -न्त्रात्
 आश्री १, १८, ७; २०, ३०,
 ७; लाश्री १, १९, १४; वीथी ४,
 ५ = २; हिथी १, ५, २५.
 शाकरी-मुल- -रस्य अश्रु १, १८.
 शाकरी-वृष्ट आश्री १०, ३१, ३.
 शाकरी-वृष्ट- -वे^० निम् २, ६ = ३१;
 गीवि २, ७, ३०.
 शाकरी(ट-ञ)वृष्टि^०- -तिः हिथी
 १२, ८, ६; ७; हिथि ४, २३;
 २८.
 शाकरी(ट-ञ)वृष्टि- -यानि अत्र
 ७०^०, ११, ३३.
 शाकरी- पा ४, २, ८०.
 शाकरी- पा ४, २, ४९.

a) = साम-विरोध-। b) वस.। c) परस्परं पामे.। d) = शाकरी- (द्र. वेद १)। e) वेद १६.।
 f) विशेष-। टि. द.। g) = मेघ-। h) = जल-। i) सवा. निप १, १२ कटाः इति पामे.। j) = देव-
 विशेष-। सवा. दिष्ट १, ६, ५ कपकाय इति पामे. (द्र. अ. टि.)। k) सवा. शाकरीः <> शाकरी <> हिथी १५,
 १, ११ शाकरीः इति पामे.। l) = जाति-विशेषः, देश-विशेष-प्रवृ.। m) व्यप.। n) ट. पाका.। शाकु-
 इति गाण्डा. प्रवृ.। o) शाकरी- (द्र. वेद १) शक्येन सम्बन्धिता द.। p) शक्यः। q) सवायं इति प्र. द.।

२शकट^०- पाग ४, १, ९९

शाकटापन- पा ४, १, ९९,
-न वृदे २, १, ९५, ३, १५६,
४, १३८, ६, ४३××, या,
-नस्य शीन २, २४, पा ३, ४,
१११, ८, ३, १८, ४, ५०

शकटि^०, टी- पा, पाग ४, १, ४५^०, कि
६९

शकटी प्रका(⟨)रा^०- रे माथी
४, १, २.

शाकटिक- प्रग १शकट- ६

शाकटीकर्ण^०- (⟨शाकटीकर्ण- १।)
पाग ४, २, ७७

शाकति^०, ती-

शाकधूम^०- -म अम १^२, १, २, ३,
-म अम २, १, १६४, -नमम्
कौव ५०, १३, १५९^०, १००,
३, अम ९१^३, १, १, ४, ३२, १,
१८, अम ६, १२८, अम २
५१

शाकधूम देवता-⟨ श्वय- २यम्
अम ६, १२८

शाकन्^०- कामि गो २, २४

शाकन्धि- (⟨शाकन्धेय- पा) पाग
४, १, १२३

शाकन्धु- पाग ४, १, १५१, पानाम
६, १, १३^१

शाकन्धुग- पा ४, १, १५१

शाकन्धुक-⟨ श्वा(कशा)दि-
नीनाम् मत्त ३, ३, ७

शाकपूर्ता^०- ना अम २, १०, १३२,

साथ १, ३५३

२शकल^०- पाठ १, ११२, पाग २,
४, ३१, ४, २, ८६^१, -ल आपथी
७, ३, ३, योथी ४, १ २१,
माथी ७, १, १४, वैथी १०, २
१, द्विथी ४, १, २१, -लम् काथी
५, १, २२^६, आपथी ७, २, ५, ९,
१०××, योथी, शथी ९,
१, ५^१, -ला बाधुथी ३, १००^०
९, वैथी १३, ७ १४, -लान्
लाथी ८, ८, ११^३, आपथी ६,
२५, ४^१, १३, १७, ९××, योथी,
-लानाम् योथी ७, १३^० ११,
माथी ६, २, ४, १, -लानि आपथी
६, १२, ३, काथी ५ ६, १४,
काथी १५९, वैथी, -लानाम्
आपथी १२, २२, ३, वैथी १५,
२७ २४, द्विथी ८, ७, ८, -लै
आपथी ७, ९, १०××, योथी
-लेन आपथी ७, १०, २, योथी
२०, १०. २४××, कामिम्
-लै काथी ४, ८, १२, योथी ७
१३ ७^१, ८, ४ २^१, १७
१४, १ वैथी १५, २७ १४, १६
४ १२, -लै आपथी १२, २३,
२, योथी ७, १४ ३, वैथी
१शाकल^०- पाग ४, २, २, -ल
कौव २७, ५ अम २, ४, ४^०, -लम्
योथी २६, ४०, -लान् योथी
१०, ५० ८, ५१ १० ३××,
वैताथी २३, १२, -लानाम्

योथी २१ ३ २०, २७ २२
१० २३, -लै योथी २१, २४
११, २२, १० १ २५, २४ २८
शाकला(ल था)धान- नम्
काथी १०, ८, ७
शाकल(ल-अ)न्त^०- गम्
योथी १०, ५४ २२
शाकलिक- पा, पाग ४ २, २
शकल परिधि^०- वि काथी ५ ६, ६
शकल वव- पा ४ २ ८६^०
शकल वजम् आपथी ११ ९ ११
शकल वृषण^०- गम् काथी ८ ७, ५
शाकल धुति- ले मीव ४ २ ४
शकल-हीम- नम् श्वाथि ३, १२,
२ १२
शाकला(ल-अन्त)ता^०- न्नाम्
योथी १८, २१ १४
शकला(ल था)धाधान- नम् द्विथी
१०, ५, १८
शाकला (ल था)हरणा (थ-आ) म
श्वन-दोम^०- ना आपथी १४
५, ७
शकली✓क⟨शकली कृत्त योथी
२७, ७ ३ ८, ६, अम २२ १ १
शकलो(ल-उ)रासन^०- नम् योथी
१८८
शकलव^०-⟨ शकलव(ल ए)विद^०-
-नि अम २, १, ५, शीव ३
५२
२शकल^०- पाग ४, १, १०५ १३१
२ १११

a) व्यप । b) वेप १ द । c) शकति- इति [पक्षे] भागवा पति । d) वस । e) शकटीकर्ण- इति पाठ । f) = नक्षत्र राज्य- [अथ अज रूप प्रभु] = क्षत्रि विभेन [अथ] । g) = उपोति [विद-भाषा] (दु गू [XLIII]) । h) = शुक-गोमय (करीप) । i) पाप < २शक- + व-धु- इति । j) = मत्त दिति पापम् । k) = पातापी-समिध्- इति विद्याधर । l) लत्र काथी ३, ५५ सकलम् इति पाठे । m) लत्र शान्ता १८, ७ शाक इति पाठे । n) विप, नाप (शाकल-मार्ग [कौव]) । तस्य दमाद्यप प्र । o) = होन विशेष (ल काथी १०, ८, ७) । p) लवाहारे इति । q) श्वा इति पायम् । रू^० इत्यन्वे इति पायम् । r) = म-धनोपवरण-रूप । s) पय > दस > सप्त (द आपथी ७, २, ५, ६, ८) । t) दू जेथी १८ १६ ।

१शाकलेय- पा ४, १, १२३.
 शाकलय- पा ४, १, १०५; -त्यः
 वा ६, २८; शुभा ३, १०; शैवि
 ५; -स्यम् शीघ्र ४, १०, ३^{५७};
 ६, १, १; -स्यस्य श्रमा २, ८१;
 ३, १३; ४, १३; अथा ३, ४, ३;
 पा १, १, १६४; पावा १, १, १८.
 २शाकल- पा ४, ३, १११;
 ३, १२८; -लम् लाभौ ६, ११,
 ४^१; वाय ३, ४, ४^७; कौष २, ५,
 ३^७; अथ ४, ४, ४^३; श्रमा ६,
 २४^१; २०^१; ११, २१^१; -लः श्रम
 ३, ९; वयू १: ८^१; श्रमा १,
 ६४; ११, ९१, -ले श्रम ३,
 ३६; -लेन श्रमा १, ७५; ६,
 १०; १४; -ले: श्रमा ११, ११;
 शाकल^१ पावा ७, ३, २.
 शाकलय- पा ४, ३, १२८^१;
 -के^१ श्रम १, १, १.
 शाकल-प्रतिपिप- -घः पावा
 ६, १, १२५.
 शाकल-शायक- , शाकल-
 शुनक- , शाकल-सपक^१- पाय
 ६, २, ३७.
 शाकल(ल-२आ)ल- -शैः
 शैवि २४०.
 २शाकलेय^१ > शक^१ - के
 श्रम ४, १.
 शाकलय-रट- -टे श्रम ३, ४५.
 शाकलय-पितृ- -शुः श्रमा ४, ४.
 शाकल्या(त्य-आ)श्वद्वैर^१-

-ययोः श्रमा ३, २२.
 शाकलपाय(न>)श्री- पावा ४,
 १, १८.
 शकला- (> शक/क पा.)
 पाय १, ४, ६१.
 शक-लोट^१- -अम् गोर २, ४, ८; जैय
 १, २२: ८.
 शकाक्षुम्- (> श्रीय-)
 शकुन्^{१०}- पाव ३, ४९; -नः शीघ्रौ
 १२, १५, ११; लाभौ १०, ९,
 १०^१; निम् ६, ७: ६३; आश्रित्य;
 आश्रयो ७, १७: १८; -नम् वीथी
 १२, १२^१; वीथ ४, २, ९; दिव्य
 १, १६, १८; -नस्य सु २४, १;
 आश्रयो ५, १५; -नाः आश्रित्य
 २, ४, ८: ८^१; शंभ २८१;
 -नानाम् वाय १४, ४८; -नैः
 वायमं १, १३, १^७; भाय २, ३१:
 ११; १२^१; दिव्य १, १६, १०^{१७};
 अथ ६८, ४, ५६.
 शाकुन्^१- -नेन विप ८०, ५.
 शकुन्-शान-निर्दिष्ट- -शः अथ
 ५८, १, १२.
 शकुन्-सूक- -कम् वैद्य ४, ११:
 ११.
 शकुन्शौ(न-उ)चिष्ट- -शैम्यः सुपय
 ८७: १५.
 शकुनि,श्री^{१०}- पाव ३, ४९; पाय ४,
 १, १२३; ५, ३, ६४; -नयः
 अथ १^१, १, ७; ६४, ७, ३;
 वीथ १, ५, १२८; -निः

आश्री ६, ५, ४; आपश्री ९,
 १७, ४^१; १५, १६, ४; २३,
 १४, १६^१; वीथी २८, ७: १३;
 भाश्रीः दिव्य १, १७, ३^{११};
 वाय २८, ८; वीथ १, ५,
 ४९; विप २३, ४९; -विम्
 पाय ३, १५, १६; वाय ४
 ९, ३^१; दिव्य १, १७, २; आश्रयो
 ४, ६; ७; -निपु मा ३, १८;
 -नीम् कौम् ३२, १७; -नीनम्
 शंभ १४७; वाय १५: ८;
 ३२: ३; -नीम् अथ ६८, २,
 ३२; -नैः अथमं १, १३,
 १०^१; श्रु ८, ४; २८, २; भाय
 ३, ५, ७; वीथ ३, ७, १०; भाय
 ४, ५, ८; पाय ३, १५, १९^१; वीथ
 ४, २, ६^१; दिव्य १, १६, १८^१;
 कौम् ४६, ५४; वा २, ४; -नैः
 वीथ ४, २, ११^{१०}; -नी शत ४,
 ६, ४; पा ६, १, १५^०; पावा
 ६, १, १४६; ७, ३, ४५.
 शाकुनेय- पा ४, १, १२३.
 शकुनि-क- पा ५, २, ६४.
 शकुनि-नामन्- -न वा २, ६.
 शकुनि-मयाद्- -नाय वीथी १४,
 २०: १०; १५, ३: १२.
 शकुनि-सचक- पाय ८, २, १०८.
 शकुनि-साद्- -देव शुभा ३, ८३^१.
 शकुन्य(नि-अ)वसृष्ट- -अम् दिथी
 १५, ७, २४.
 शकुन्त^{१०}- पाव ३, ४९; -न्यः सु २६,

a) शक^१ इति पाठः ! यन्नि. शीघ्रः (तु. Old.) । b) सपा. शाकलयम् <>. शाकलयम् इति पाठे ।
 c) नाप., व्यप. । अपरपाठयो प्र. । d) = साम-विशेष- । e) = निधान- । f) = शाखा-विशेष- वा तदर्थे-
 वा । g) = संघ-विशेष- । h) = शनैर्- । चरणाद् शुभ प्र. । i) तु. पावा. । j) = २शाकल- । शीघ्राथे
 यक् प्र. उभं. (पा ४, ३, १०१) । k) व्यप. । l) नाप. । अर्थः सु. च १ । शक-लोट- इति श्रव. । शाकल-
 इति संस्कृतः टि. । विशेषः भाष्ये द. । m) तु ८६७ ४ द. । n) नाप. (पश्चिन्, शुभाशुभ-निमित्त- । व्यप.,
 आश्रयो.) । o) वैप १ द. । p) सप. शकुनैः <> शकुनेः इति पाठे. । q) शकुनेः इति Döb (ZDMG
 ५२, ८४) शीघ्रः । r) = गान्त- । इरपाठयो अण् प्र. । s) परत्वं पाठे. । t) पतिः इति पाठः ।

४; २७, १; ३०, ७; -न्तम् ऋष
२, २, ४३; -न्ताः पाप ६, ३;
११, ३९; -न्ते सु २७, २.
शकुन्त-क> गितिका- का वीथी
१५, ३० : ४१.
शकुन्ति- पाठ ३, ४९.
शकुन्ती- (शाकुन्तक- पा.) पाग
४, २, १२७.
शकुल- पाठो २, ३, १०९; -नी
शांथी १२, २४, २; लांथी २,
१०, ५.
शकुलाद्-> शाकुलाधिक>
का-, फी- पा. पाग ४, २,
११६.
शकुत्- पाठ ४, ५८; -हृत् आपथी
९, १८, ११; १५, ३, १७; १९,
२५, २२; वीथी.
शकुत्-करि- पा ३, २, १४.
शकुत्-प(ह>)री- पाग ५, ४,
१३६.
शकुत्-पिण्ड- षटः कौट ७, २३;
-ण्डम् आमिष २, २, ५ : ७;
द्विष्ट २, ६, ३; कौट ५४, १९;
६९, १६; -ण्डस्य कौट ५३,
१०; -ण्डात् वीथी १०, ६ : २;
१३ : ८; २२, ९ : ८; वीथी १८,
७ : १; कौट १९, १९x; -ण्डे
आपथ १०, ८; द्विष्ट १, ९, १८;
कौट ७६, १५; ७७, १७;
-ण्डेन वीथी २, १६ : ६; १०,
१९ : १५x; वीथी; -ण्डेः
अप्राय २, ९.
शकुत्पिण्ड-सद्- सदे पाठ
३, १५, १४.
शकुत्-सद्- सदे आपथ १, १३.

८; वीथ ४, २, १३; माय २,
२९ : १५; १६.
शकुत्-आदीपन- नात् कौट ८०,
२१.
शकुत्-आभ्यन्तर- न्त् कौट ८०,
२०.
शकुत्-दत्- न्त् या ६, २२.
शकुत्-थ(<ह)ति- -तौ द्विष्ट १,
१६, १६.
शकुत्-नीति- -विम् आपथ ९, ३;
-तौ माय २, २९ : १५.
शकुत्-व्यतिक्रम- से वीथ ४, २, १३
शकुत्-मूत्र- पाग २, २, ११७.
शकैष- शक- द्व.
शक- १-२शक्ति-, शक- प्रथ.
✓शक् द्व.
शक- पाठ ४, १०८.
शकर- ✓शक् द्व.
शशङ्क, गमा- -माः आपथी १, ६, ७;
भाथी १, ६, १०; द्विष्टी १, ३, २;
-मम् आपथी २, ५, १७; आपथी
६, २७, ४; द्विष्टी; निप ३, ६;
-मम्-मम् वांथ ३, ५, १;
-मया भाथी २, १६, २; वीथी
१४, १९ : २६; आपथ; -मा
आपथी ४, ६, २; भाथी ४, ८, ३;
द्विष्टी; -ममाः आमिष ३, ८, २ :
५५; -ममाः भाथी २, २४, ८;
-ममामि कौट १२४, ५; अप १,
२६, २; -ममाये कौट ३८, ९;
-मोन आपथी ८, ४, २; वीथी
५, ४ : २९; ९ : ३०x; भाथी.
शशङ्क- -ममेव या ३, ४.
✓शङ्क पाथा. भा. आम. शङ्कामा,
शङ्कते मीट ४, २, २, ८, १,

९; १०, ३, ३३; शङ्कते कौट
४९, १२; १०३, १; शङ्के पाग
१, ४, ५७; शङ्कते वाथी ३, ४, १,
३२; लाथी २, १, १०; निप २, ६;
५; कौट ३, १३, १७; माय
शङ्कते शाप ४, १४, ५७.
शङ्कमान- नाः वीथी २३, २ : ३०;
कौट ७५, १०; अप ३३, २, ४;
-माः आपथ १, ७ : १०; अप्राय
२, ४.
शङ्क(ह>)का- द्वा वैष ३, ३, ३.
शङ्क-विहित-चारित्र- नः वीथ
१, ५, ६६.
शङ्क-न्याय- ने वाप २७, १०.
शङ्कित- -तम् वाथि १, २८,
वाथि १, ३, ११६.
शङ्कय- -द्वयम् द्विष्टी ४, ३, ५२.
शङ्कर- प्रथ. ✓शक् द्व.
शशङ्कु- पाठ १, २६; पाग ३, ४,
७४; -ङ्कया काशु २, ६; ४,
६; या ४, २७; -ङ्कः वीथी
५, ३, १३; १६, ८, ६x,
वीथी; काशु १, १६; ४,
५x; -ङ्कना भाथी २,
१, २, १४; शंभ ११६; नः;
११७; -ङ्कमिः आपथी १६,
२५, २; २१, १८, ३; काशु १६,
वीथी; -ङ्कम् वाथी ८, ३, ७;
आपथी ११, ५, १३; १५, ६, १४,
१९, ११, ६; वीथी, काशु १,
२x; आपथ १, १२x; कौट
१ : ११x; द्विष्ट १, २२x;
-ङ्क भाथी १६, ८, ४; आपथी
१५, १५, १; वीथी ६, २२;
१०x; भाथी; -ङ्क वाथी

त्रिपदः बोधः । e) = शङ्करसंपात- । f) परस्परं पामे । g) विभक्तिप्रतिपत्तयम् अन्व. । h) परस्परं पामे ।
i) विहितं दत्ति बोधः । j) = पाठ-दोष- । k) = गीति-दोष- ।

२१,३,२९; वीथी ६, २८ : २;
 ८, १९ : ६xx; वीथि; -होः
 आपथी ११, ४, १३; वीथी
 ६, २२ : ७; ९; १०xx; माथी;
 -हो आपथी १२, २७, ४; हिथी
 २२, ६, १७; आपथ ९, १; हिथ
 ३, २१; -ह्योः वाथ १, ३; ८.
 शब्द-पान- -नम् वीथ २६, १६.
 शब्द-पथ- पा^०, पाग ५, ३, १००.
 शब्द-पथिक- पावा ५, १, ७७.
 शब्द-पथ- -नम् माथि ८, ४.
 शब्द-म(त>)थी- -ती अथ ४,
 १५; ६, ३०xx; थि ३, ५५;
 थनिम् २ : १; ४ : ४; -थः अथ
 १२, ३; १२, ४३; थनिम् ६, २२.
 शब्द-थोक्त- -हो काथी १०, ८,
 १६.
 शब्द-थ(त>)थी- -तीम् द्र थ ४,
 ३, १.
 शब्द-थ- पा ८, ३, १७; -हः वाथी
 ३, १० : २.
 शब्द-संमि(त>)थी- -थवा काथ
 १, २.
 शब्द-सहित- -नम् काथी ५,
 ३, २५.
 शब्द-स(ह-अ)थ-व्याया- -वा
 काथ १, २.
 शब्द-कु^०- [> शब्दकथ- (>
 व्यायान >)थी-] पा. शक]
 पाग ४, १, १०५, १८.
 शब्द-^०- पाव १, १०२; पाव २, ४,
 ३१; ४, ३, ९२; -ह्युः आपथं
 २, १६, १२; थोथ ४, ८, ८।

वथ ३, १०, १७; वथा ३,
 ४, १; -ह्युः आपथि २, ३,
 ५ : ३; ५, १ : ४४; थैथ ४, १४ :
 ११; थैथ २, ९ : ३३; वीथ;
 -ह्युः आपथी २१, १७, १७;
 १९, ४; -ह्युः थिथ ९९, १२;
 माथि १४, ९; -ह्युः अथ १८, ३,
 १; -ह्युः आपथि २, ४, ६ : ३९.
 शब्द-^०- -ह्युः हिथी १४, ३, २२.
 शब्द-थ- पा ४, ३, ९२.
 शब्द-थ- -ह्युः थिथ ९६, ७८; ८९;
 ९२.
 शब्द-थुर्पक- -कः आपथं २, १६,
 १११.
 शब्द-थक-वादा-थ- -रः थिथ १,
 ५०; -रः आपथि २, ४, १० : ७;
 -रम् आपथि २, ४, १० : १३;
 ६ : ३०.
 शब्द-थक-वादा-पथ-थ- -रम् थिथ
 ९७, १०.
 शब्द-थक-थ- -रम् थैथ ४, ११;
 ४.
 शब्द-थका(क-आ)थ(दि-अ)थन-
 -नम् थंथ १२२.
 शब्द-थन- -थयोः पावा २, २, ३४.
 शब्द-थय- -थिनाद- -थैः अथ २१,
 ६, ७.
 शब्द-थुन्मुथि-नाथ- -देन अथ ८,
 १, २.
 शब्द-थन- -नम् माथि ११, ३१.
 शब्द-थनि- -थिना अथ ७, १, १०.
 शब्द-नाथी-थन- -वाः थिथि १४ :
 १३.

शब्द-थिथि- -थिथुः थैथ ६, ५५.
 शब्द-थय-थय- -थैथ शंथ २४२.
 शब्द-थानि- -थय २, २, ३७.
 शब्द-थिथ- -ना आपथं २, १६,
 १३१.
 शब्द-थु(थ>)थी- -थीम् वाथ
 २७, ११.
 शब्द-थुथी-थिथ- -थैथ वीथ २,
 १, २१.
 शब्द-थुथी-थल- -नम् थिथ ५१,
 २३.
 शब्द-थैथिथ- -थी अथ ५२, ८, १.
 शब्द-थैथि-थथिथ- -नम् अथ १२,
 ५, १.
 शब्द-थानि- -थीन् आपथी २०, १५,
 ११०.
 शब्द-थानि-थक- -कम् अथ ४,
 १०.
 शब्द-थन- -थान् वाथी ३, ४, ३,
 ४६; थिथी १४, ३, २२.
 शब्द-थन- > थिथ- -थी थिथ ९८,
 २.
 शब्द-थन-थानि- -थी थैथ ३,
 ११, ९.
 शब्द-थैथ-थय- -थानाम् अथ ७१,
 १३, २.
 शब्द-थैथ-थीथ- -गाः अथ ७१,
 १५, ६.
 शब्द-थय- -थैथ थिथ ९९, १५.
 शब्द-थुथि- -थीनाम् वाथ ३,
 ५१.
 शब्द-थुथय(कि-अ)थानि-
 -थी शंथ ३७७ : ७.

a) अर्थ- ? = चर्मच्छिद्र-मणि- इति केशव. (वृ. ४ [५ [११]). b) < शब्द-पथ-क-। c) = छन्दो-
 विशेष-। d) अर्थ-। e) नाथ. पुं. न. [मन्त्रप्रतीक- (मेरा २, ९, ८ [अथ. गो. १]), वाय, मणि-विशेष- (अथ.
 अर्था.), वाय-पथ- (आपथं, प्रथ.)। f) = जनपद-विशेष-। g) = शब्द-मथि-। सार्थे प्र.। h) = विष्णु-।
 i) अथ. > थन > थन.। j) थैथ ११.। k) ह्यु, पागम.। l) = ओम्भि-विशेष-। m) नाथ. (पथ-।
 उत.। n) थन. हिथी १४, ३, २२ काचान् इति पाठे.। o) थन. आपथी २०, १५, १० सामुदाय् इति पाठे.।

शाब्दावनीप- -यम् आसिध्
 २,७,१: ३.
 शाब्दावनि- पा ४, १, १५४;
 -नि: वीथी १: १७; -ने: क्प
 २, ९, ५.
 शाब्दावनि-प्राज्ञान- -यम्
 आपथी ५, २३, ३; भाय् ३, १८:
 ५.
शटीकर्म (> शाटीकर्म) -
 ✓शट् पाधा. भ्वा. पर. हितासंक्ते-
 रानकेतवेपु; नुरा. आत्म. श्वा-
 धायाम्, पर. भर्त्सकारगत्यो; उभ.
 सम्यक्वभाषणे.
 १शाठ, ठा (१शा.)- पाठना ४,
 ११५^०; -ठा: विध २३, ९^०;
 -ठा नाधि २, ४९^०; आण्यो
 १३, ८^०.
 १शाठ्य- -यम् वीध २, २,
 ७८.
 २शट- पाय ४, १, ९८; १०५^०;
 -ठा: वीथी १७: ५.
 २शाठ्य- १ा ४, १, १०५; पाय ४,
 १, १५४^०.
 शाट्पावनि- पा ४, १, १५४.
 शाट्पावन- पा ४, १, ९८.
शठमर्षण - -या: वीथी २०: १.
 शठमर्षण-मद्ग-मद्ग-वाद्ग्रायणौ-
 (ण-शौ)मिन्दी(मन्व-शौ)^६.
 पवनि-सायकि-सायंक्वाम्या-
 (वि-श्रा)कमिनिपुविड- -वदी-
 नाम् आपथी २४, ८, १०.

✓शण पाधा. भ्वा. पर. गती, दाने.
 १शण- -यान् वीध २, ४, १^०; -वै:
 काशु ७, १४.
 शण- -गम् निह् १, ११: ८;
 योए २, १०, ११; वैए १, १२:
 ५०.
 शणी- -णी काय ४,
 ८^०; वैए २, ४: ५; वीध १, २,
 १४; काशु ७, १३; -णीम् वार
 ५, ७; -ण्वा वीथी ६, ५: १६;
 वैथी १२, ९: ४.
 शण्यो-शौमा(म-श)
 जिन- -नानि आपव १, २, ४०;
 दिध १, १, ७१.
 शणीक्षीमामिन-
 वासम् - -सा: वाय ६, २७.
 शणी-वीर- -यम्
 काय ५, ९.
 शण-शौम-वीर-कुतप- -वा:
 वीध १, १९.
 शण-शौम(म-आ)विक-
 -कानि पाय २, ५, १६.
 शण-कुछय- -येन आपथी १६, ९,
 ४; हिथी ११, ३, ३.
 शण-तन्तु->शणतन्तु(ष->)
 वी- -वी वाध ११, ६०.
 शण-वाद्-
 शण-क(ल->)ला- पावा ४, १, ६४.
 शण-मुञ्ज-मि(श->)श्व- -श्वाम्
 काथी ७, ३, २२.
 शण-रञ्ज- -ञ्जुवाम् कौत् ७२,

१५.
 शण-शकल- -लेन कौत् ७२, १५.
 शण-शुल्य- -स्वेन कौत् २५, २८.
 शण-संमिध- -श्रै: क्प १, ७, ७.
 शण-सूय- -श्रे काथी १६, ५, १;
 -श्रेण कौत् १, १६, १९; वाय
 १, २४, ११.
 २शण^० (> शणायन- पा.) पाय
 ४, १, ९९.
 शणक^० -> शणक-वाश्व- पाय ६,
 २, ३७^०.
 ✓शण्ट^० पाधा. भ्वा. पर. शोवणे.
 ✓शण्ट पाधा. भ्वा. आत्म. रुनाथी
 संघाते व.
 १शण्ट- पाउडु ४, २३; -ण्ड:
 आपथी १२, २२-२३, २; काथी
 १, १०, ४; १०; वीथी: आपथ्यं
 २, १३, ९^०, आसिध् २, १, ३:
 १३^०; काय २५, १^०; भाय् १,
 २३: ३^०; वैए ३, १५: ४^०;
 दिध २, ३, ७^०; -ण्डाय आपथी
 १२, १४, १४; वीथी ७, ६: ४८;
 वैए १, ८: १४^०.
 १श(णव->)ण्डा-मर्क- पाय ६,
 २, १४०; -की आपथी १२, २२-
 २३, २५; माथी २, ४, १, ७^०;
 वीथी १५, २७: २५; २९: ३;
 दिथी ८, ७, ८; २१; वाय १,
 १६, २३^०.
 शरिडक^० (> शाण्डिक- पा.)
 पाय ४, ३, ९२.

a) = १शाहाय- । शोकार्थे छन् प्र. (पा ४, ३, १०२) । b) १ २३५२ ० द. । c) < ✓शम् ।
 d) = धूर्त्, तर्त् । e) ऊम्बकारपरकारमेद- । f) भावे व्यम् प्र. । g) व्यय. । h) १ २३५६ १७ द. ।
 i) वहु. < २शाठ्य- । j) १ २३५६ ५ द. । k) यनि. शोष: (द्र. संस्कृत: टि.) । l) वैप १ द. ।
 m) काठ: ३ शीर्णान् इति ८. । शीर्णान् इति संस्कृत: टि. । n) विप. । विकारे प्र. । o) नाप. (पराती): ।
 p) वव. । q) मलो. कस. । r) विर. । विकारे भणि टप. वृद्धिराहन्द्रो (द्र. मेधातिथि: (मनु: [२, ४२]) ।
 s) १ ९०२ १ द. । t) द्र. पायम. । u) सण^० इति पाका. । v) द्र. J.P.G. । w) पाणे. १ १२३६ h
 द. । x) = सपा. वै ६, ४, १०, ३ । मै ४, ९, ३ द्रु पुण्डामुणौ इति पाणे. । y) कुण्डिक- इति पाणम. ।

शण्डिकेर^० - सः आपमं २, १३, ८^१।
 शण्डिकेर^० पाठ ३, ५४; पाग ४, १,
 १०५; २, १११; -सा^० बौधाय
 ४३: १; ७; -लानाम्^० आश्री
 १२, १४, ७; आपमो २४, १०,
 १; द्विथी २१, ३, १३.
 शण्डिकेर^० - ० ल आश्री १२,
 १४, ७; बौधाय ४३: ८; ९; वैध
 ४, ७, ५.
 शण्डिकेर^० - पा ४, १, १०५;
 - ० ल वैध ४, ७, ३; ८; - ० ल्यः
 द्राश्री १, १, २७, ४, २५; ३० x x;
 लाश्री; - ० ल्यस्व द्राश्री १, ४, १९;
 लाश्री; - ० ल्यानाम् वैध ४, ७, ३०.
 शण्डिकेर^० - पा ४, २, १११;
 - ० ल्य^० लाश्री ८, २, २८;
 निम् ४, ९: ३२.
 शण्डिकेर^० - पाग ४, २,
 ८०^०; - ना: द्राश्री ८, २, ११; ९,
 ३, १७; ११, ४, ६; १२, ३, ८;
 लाश्री; - ० ल्यस्व द्राश्री ७, ४, २४;
 लाश्री ३, ४, २९.
 शण्डिकेर^० - पा ४,
 २, ८०.
 शण्डिकेर^० - पाग ४, २,
 ८०^०; - ० ल्य^० लाश्री १०, १०, १८.
 शण्डिकेर^० - पाग ४, २,
 ८०^०; - ० ल्य^० लाश्री १०, १०, १८.
 शण्डिकेर^० - पाग ४, २,
 ८०^०; - ० ल्य^० लाश्री १०, १०, १८.
 शण्डिकेर^० - पाग ४, २,
 ८०^०; - ० ल्य^० लाश्री १०, १०, १८.

१२; वैध ४, ७, ३; ५; ८.
 शण्डिकेर^० - सः आपमं २, १३, ८;
 वैध ३, १५: ४.
 शण्डिकेर^० - पाठ १, १९.
 शत^० - पाठ ५, ४२; पा ५, १, ५९;
 - ० ल्य^० वैध ४, १०: १२^१; - ० ल्य^०
 वैधश्री १, १२, ३६; ७, ४,
 ३ x x; ९, ३, १५^१; शश्री;
 लाश्री १०, १, १०; १५, ४,
 ४३; आपमो ५, ११, ५; २२,
 १०, ७^१; द्विथी १७, १, १७;
 ४, १; २६^१; लाश्री ८, १०;
 १३^१; अप ४८, ६९^१; आपम
 १८, २^१; बौध ११: १; द्विथ
 ६, ९^१; निघ ३, १^१; पा १३,
 २^१; १४, ३६; - ० ल्य^० - ० ल्य^० लाश्री
 १६, ४, ५; आपमो २०, १५, ८;
 बौधो १८, ४४: १२^१; - ० ल्य^०
 लाश्री १०, ६, ५; अप ५, १, ३; ७२,
 ४, ७; नद्रा ८, ४५^१; - ० ल्य^० लाश्री
 ३, २, ५; ८, २१, १ x x; बौधो;
 - ० ल्य^० लाश्री ६, ६, १८; आपमो
 २२, १७, ८; द्विथी; - ० ल्य^०
 लाश्री ९, ९, १४; बौधो १८,
 १७: १८; नद्रा ४, ११; माशि
 १६, २; माशि २, १०^५; - ० ल्य^०
 लाश्री ९, ५, ९; लाश्री १२, १४,
 १^१ x x; लाश्री; - ० ल्य^० आपमो
 १७, ११, १; बौधो १०, ४७: ६;

१०; १९, ४: १८; लाश्री; - ० ल्य^०
 लाश्री ३, ४, २, ८^१; - ० ल्य^० लाश्री
 १०, १२, १४ x x; लाश्री; - ० ल्य^०
 > ना वैधश्री ७, २, ४ x x;
 लाश्री; - ० ल्य^० नाशि २, ३, ३^१;
 - ० ल्य^० लाश्री ३, ४, १, १०^१; अप
 ३३, ३, ४; निघ २६, ५५.
 शत^० वैध १, १४: ८^१.
 शत-काण्ड^० - ० ल्य^० अशां १९, ६;
 अप १९, ३२^१; ३३.
 शत-कुम्भ^० - (> शतकुम्भ^० -
 पावा) पावाग ७, ३, २०.
 शतकुम्भ^० - > ० ल्य^० मय-
 - ० ल्य^० गौध २०, १०.
 शतकुम्भ-सप्त-सुति - ० ल्य^०
 विघ १, २४.
 शत-कुम्भ^० - आपमो २०, ४, ६;
 द्विथी १४, १, ४२; आशिघ.
 शत-कुम्भ^० - ० ल्य^० लाश्री ३, ३,
 २, २८; ४, ५, ५; - ० ल्य^० आपमो
 १९, २१, १; बौधो १३, २३:
 २; द्विथी २२, ४, १; आशिघ;
 - ० ल्य^० लाश्री २६, ६: ६,
 लाश्री ५, १, ९, ६; - ० ल्य^० आपमो
 १८, १५, ५; २०, २०, २.
 शत-कुम्भ^० - ० ल्य^० आपमो ६, ३०,
 २०; बौधो ३, १२: २८; माश्री
 ६, १८, ७; माश्री; वृदे ४, ४६^१;
 आपमो ५, १६^१; - ० ल्य^० लाश्री ४,

n) = शत-कुम्भ-विशेष-।

b) सप्त. शण्डिकेर: <> शण्डिकेर: <> शौण्डिकेर: इति पाठे. ।

५ ११८० आ अपि द्र. । c) द्या. । d) बहु. <शण्डिकेर- । e) परस्परं पाठे. । f) सत्येदोषः

प्र. । g) = शण्डिकेर-मन्त- । h) अर्थः ? । i) तेषामेकीयम् छः प्र. । j) वैध १ द्र. ।

k) = शतम् (वृ. लाश्री २५, १, ११) । l) = सप्त. तां १८, ५, २१ । लाश्री २२, १०, १ वृ. शतुघातम् इति

पाठे. । m) ० ल्य^० इति पाठः ? यनि. शोधः (वृ. पाठे.) । n) = बहु- । o) बिनं शतम् > बौध

२१: १ विनाशतम् इति पाठे. । p) शतुघातम् इति पाठः ? यनि. शोधः (वृ. लाश्री.) । q) = शततद्व्यापि

(वृ. टि. १) । r) वृ. । s) वृ. पाठः । t) = परस्पर- इति पाठम्. एक. प्रम्. । u) = सुवर्ण- (वृ. अश्री.) ।

<शतकुम्भ- इति एव. प्रम्. । v) = सुवर्ण- । <शत-कुम्भ- इति अशा., <शतकुम्भ- इति एव. प्रम्. ।

w) = तैत्तिरीय-शत- ।

१०, १, आधु २ २०, ६, बीध्री
 २४, २९ २०, माधु, -०तो
 आधु २, १८, १३, ७, ४, ४, १२,
 १९, शोधु, सु २७, ६९,
 वाए १४, १^३, -तो अण ४,
 १, २२, -व पाश ७, ३, १०९
 शततनु-यज्ञ- -वेण नञ् ३ २
 शत की^० -प्रिय आधु २२,
 १२, ५, लाधु ९, ४, १५
 शत क्षर^० -र आधु ४, ७, ३,
 माधु ४, ११, १, हिधु ६, ३,
 १७, कौसु ३, १०^०, -रेण आधु
 १८, १५, ५, २०, २०, २
 शत-गु- गो वीध १८ २०
 शत गुण- ण वाध २६ ९, विध
 ५५, १९, आधु ७, २२, -णम्
 वाध १२, २५
 शतगुणी^० > णी-कृत- तम्
 काध २८२ * २
 शत- (न >) णी^० - गनीम् वाध
 ३० * ४
 शत चर्म^० - मा सु १५, ४
 शत-जावि(त >) ता^० - ता अण ३५,
 १, ५
 शत त-तु^० - श्नु आधु २२,
 १७, १०, वीधु २३ ११ २८,
 हिधु, -नुना आधु १३, २
 २५, हिधु १६ ६, १५, -शुम्
 वीधु १६, २० २१ ५, वाधु
 ३, ५ २५
 शत तन्त्री^० - त्री शोधु १७, ३,
 ९, -त्रीम् शोधु १७, ३ १

शत-तम, मा- वा ५, २, ५७, -म
 वीधु २२, २०: २२, -मा
 वीधु २३, ११ २९, -मा
 वीधु २२, १८: ४.
 शततमी- न्या ब्रध १४, १^३
 शत-तर्मा^० - श्म आधु १५, ५ २७
 शत तर्मा^० - हाव् तैमा ६, १४^१.
 शत तैमा^० - जा वीधु १, ११
 ३, माधु २, १, १, हिधु १, ६,
 ६५, वाधि २, ८
 शत-यय- यम् शध ४, ५
 शत-दक्षि(ण >) णी^० - गा शध
 २८४
 शत-दत्^० - दत्ता वीधु ७६, ५
 शत-दाव^० - यम् आधु २, ११,
 १०, आधि २, १, ५ १४, वा
 ११, ३ १^३
 शत हु^० - पाठ १, ३५, पाश ३, २,
 १८०
 शतनु वीर- रे विध ८५ ४७
 शतनु दिगवत्^० - वन्तम् अण
 ५६, १, ९
 शत द्वय- यम् शध ३ ४४, ४,
 ४, १०
 शत-वा वीधु १२, ७ - ३४^१ वाध
 ३, ६, वीधु १, १, १२, मुदे ४
 १२०
 शत धार, रा^० - र आधु ४, ७,
 २, माधु ४, ११, २, हिधु
 ६ २, १७, -रम् आधु २,
 २१, ७, वीधु १, ३ १३,
 १७ २१ २३, १०, ३४ ९,

माधु, -रा अण २, २, १६,
 -रेण आधु १, १३, ६ गाधु
 १, १२, १०, हिधु १, ३, ४१,
 कौसु २ ३४
 शत-धेनु-प्रद- र विध २२, ७
 शत निष्क-सगन्धित- -णम् अण
 ७०, ४, २
 शत-धति-(> शानपत- पा.) पाण
 ४, १, ८४
 शत-धय, रा^० - पाण ५, ३, १०७^१,
 -०म कौसु ४६, १, ५४^३, -रा
 अण ७०^१, ३, ५^३
 शतधय- वा ५ ३, १०७
 शत-धय^० - वा^०, पाण ५ ३, १००
 शतधय- पावा ४, २,
 ६०^१, -धी नाधि १, १, १३^१
 शतधयिक^० - का वाध २,
 ८१८.
 शतधय-यत् मासु ३, १५
 शतधयिक- पावा ४, २, ६०^१
 शत ध(>) वी^० - पाण ५ ४,
 १३१^१, -श्रीम् वीधु ८. १६,
 दाधु २, ४, ११, लाधु १, ६, ९
 शत धर्म^० - वंश अण ४३ २,
 १२, -वंश अण १२, ५(७)^१
 शत-धल^० - लम् वीधु १५ १७
 २१, २२, १८ ४, २८ २३,
 २५ -कान् वीधु १५ १५ ९,
 ३८ ६, वाधु ३, ७६ २२,
 -लेन अण २०, १३, ८,
 वाधु ३, ४, ३, ३, ९, हिधु १४,
 ३, १२

a) ०तो इति पाठ ३ वनि शोध (तु अ ८, ११, ७)। b) उस उप चर्मणि विष् प्र । c) वस उप भाष । d) नानाक्षर इति पाठ ३ वनि शोध (तु एषा आधु प्रध.)। e) वैष १६ । f) वस । g) विष (आधु) । तुस । h) चल्सा इति पाठ ३ वनि शोध (तु W) । i) पु १३८१३, ०६ । j) = नदी विशेष- । उस । k) मलो कस । l) = क्मल । m) = शोधि-विशेष । n) = वाग्धयय भेद । o) < शतधय-क- । p) अण । तदधीते इत्यर्थे क्व अण्, क्व च प्र । q) तस्येदमीय अण प्र । r) = खर्वक-ज-तु इति पाणन । s) = निष्क- । तद्विधौ द्विस उप = २१५८ ।

शत पवि(त्र>)वा^१- जा आपम
 १, १०, काश २५ ९, या
 ५,६६
 शत-पुत्र->शतपुत्रकं-पा) पाग
 ५,१,१३३
 शत पुत्र(र>)रा^१-रा आश्री ९,
 ९,५
 शत पु(व्य>)प्या^१-पावा ४,१,
 ६४, -व्या अप १,४३, ९, ५,
 २, १, -व्याम् अप ४,१,६,
 शत प्रतिपेय-ये पावा ५,१,२१
 शत प्रद-दम् वा ११,२१
 शत-प्रवृत्ति-ति आश्री ४,१५ ३
 शत प्रवेदन^१-न शब्ध २, १०,
 ११३
 शत-पला(ल-प्रोक्ष^१-स वा ११,६
 शत-बलि(ध>)शा^१-शा माशि
 ९, १०१
 शत भिप,पा^१-य अप १,१,३,
 -या अप १,२,१, -याम्-ये
 अशा ५,३
 शत भिपवृ^१- पा ४,३,३६, -पक्
 अप १, ३, १, ४, ६xx, अशा
 ११, ३, -यन्म अप १,५,२,
 -पति अप १,६,५ १०,६xx,
 अशा १३, ४, -पति शोण १,
 २६, २३१, वेष्ट ३, २० १०,
 अशा १२४
 शतभिप-पावा ४,२,७
 शतभिपज- पा ४,३,३६,
 पावा ४,२,७
 शतभिपती^१-व्याम्
 आशिष्ट १,७, ४ २

शत भुजि^१-जि शब्ध ७, २११
 शत सृष्टि^१- द्वि आपधी २, ३,
 १४, बीश्री १, ११: ४, भाश्री
 शत-म्(ध>)प्या^१-व्याम्
 वाष २६, १५
 शत-नाज- वम् अप ६७,६,१
 शत मान^१- पाग २,४,३१, -न
 माश्री ५ १,६,२९, -वम् काश्री
 २०, १, २२, ५, ६, आपधी,
 -नस्य आपधी १७, २३, ५,
 १८,५,५, १९,२३,११, काश्री,
 -नाम् काश्री २०,१,६, -नानि
 काश्री १५ ७,३३, बीश्री १८,
 ३७: २, -ने काश्री २६, २,
 १७, बीश्री १३,९ ११, -नेन
 आपधी १८, १५, ५, २०,२०,
 २, २२,१६,१६, बीश्री १५,९
 ९, द्विशी ८, २, ३३, १४, ३,
 १२, -नी काश्री १५ ६, ३०,
 ३१, २६, ७,४१, आपधी १५,
 ५ १६, १९, २,६१, भाश्री, शब्ध
 १,६२२
 शतमान-पा ५,१,२७
 शतमानिक^१-की माश्री
 ४,३,२, ५,१,९,३
 शतमान रय-वासो(ससु-अ,ज-
 -जा काश्री २ ३,२२
 शत मूर्त्त^१- ०ध्व् आपधी १,
 २५,१०१
 शत-यातम् अश ९,४१
 शत वात^१-गवे वाष ३०, ११,
 -त या ६,३०१.
 शत-योजन-विस्ता(र>)रा^१-

राम् वृदे ८,३२.
 शत रश्मि^१- ०रमे माग १,१९,
 ४, २,१४,३१
 शत रात्र^१-त्र काश्री १३,१८,४,
 बीश्री १६, ३६ १५, -अम्
 आश्री ११, ६, १५, काश्री २४,
 ३,२५, निस् १०,५ ३, -नाम्
 शग् २, ३, ६१, -त्रे बीश्री १९,
 ९:९, द्विशी २३,३,२७, लाश्री
 १०,५,९, गोण २,६,८१.
 शतराज सामान्य-यत् काश्री
 २४,३,३३.
 शतराज(ज-अ)न्त-न्तेषु
 आपधी १९,१५,७, द्विशी २३,
 ३,२७
 शत-ख-रश्मि^१-पावा ४,२,
 १८, -यम् माश्री ३, २, १३,
 ६, २, ४, ३, काश्री २, ३, ३,
 ३, वाष २८, १४, शब्ध १०५,
 विष ५६, २१, चात्र १७ १६,
 -वेण बीश्री २, ८, ८
 शतरश्मि-यत् काश्री १९,४,
 २३, २३, ७, ३
 शतरश्मि होम-न. काश्री
 १८, १, १.
 शतरश्मीय^१-पावा ४, २, २८,
 -यम् आपधी १७, ११,३, १२,
 ९, बीश्री १७, २४ १०,
 २५-२६ १३xx, द्विशी,
 -यस्य आपधी १९, १२, २५,
 १३, ३, बीश्री १८, ५:४,
 २२, ९ ४, बीश्री
 शतरश्मीय होम-म बीश्री

a) शै १ ३ । b) वर । c) =शोषि विधेय । d) वप । e) =शतवचना-
 (प्र गृहे, माशि २, १६) । f) वष =भिपवृ । g) =नक्षत्र विधेय । h) =वीर्यमासी- । i) विप,
 नाप (अर्थ वापमा [२४३, २५३, २५४]) । j) =सुपरलरिक्वासात-परिमाण । k) परिमाणार्थे वृत् प्र ।
 l) वग >वष । m) विप >नाप (आदित्य-) । वस । n) =[शतपुत्र]यत् विधेय- । o) दक्षिणार्धे
 दिग् । p) समहारे दिग् । कल्लरं पाठे ।

१२, १०.५७.
 शत(त-श)वी-> विन्- विन्
 आद्य ३, ४, २, वीद्य २, ५, १,
 शीद्य ४, १०, ३, रूप ४, ४,
 ११, शब्द १, २, ३, वृद्धे ३, ११६,
 -विद्यु वृद्धे ३, ११४.
 शतविन्-आप्तु(दि-श)पि^२-
 -वीन् रूप ४, ४, ३.
 शत(त-श)वंश^३- -वंशम् शब्दा २,
 ७११
 शत-वत्- -वत् वा ९, २३, २४
 शत-व(ध)>वा^४- -वा अत्र १२,
 ५(३)१.
 शत-वर्ष^५- -र्ष आप्त १, १४, २५,
 द्विष १, ४, ५४, -र्षम् विष ३, २,
 १७
 शत-वल्^६- -लः शीथी १४, ३२,
 ५^७, -लान् शीथी १४, ३२, ९
 शत-वलि^८- -लेः वीद्य २, ११,
 ५४^९, आप्त २, १७, ३, द्विष
 २, ५, २९.
 शत-वल्दा, वल्दा^{१०}- -वल्दा^{११} आप्त
 ५, २, ४, ७, ३, ८, वीथी ४,
 १, २४×४, माथी, -वल्दाम्^{१२}
 आप्तथी १, ४, ८, वीथी १, २,
 १२, माथी १, ४, १, माथी १,
 १, १, ३८, द्विथी १, २, ४१,
 -वल्दा याति ३, १६, -वल्दाः
 आप्तथी ४, ६, १, माथी ४, ८,
 १, द्विथी ६, २, १
 शत-वार्^{१३}- -वार् अत्र १९, ६, अत्र
 १९, ३, -वर्ष अत्र १९, ६

शतवार-देवत- -उम् अत्र १९,
 ३६.
 शत-विन्(एण)>ण्णा^{१४}- -ण्णाम्
 काथी १९, ३, २३.
 शत-वीथ^{१५}- -थी वीथी १५, २,
 १६, ३६ : २८, -थीया आप्तथी
 ६, २६, १२, १७, १, ४, वीथी ३,
 १२ * ५×४.
 शत-व(ज)>जा^{१६}- -जा आप्तथी
 १७, १८, ११.
 शत-वत्() आप्त ५२, १, ५, आप्त
 २, ५, १० : २३, याति.
 शत-व(सा)>वल्^{१७}- -वल् वीथी
 १२५, २, आप्त २, ६.
 शत-वार्द^{१८}- -वर्द आप्त ३, १,
 १ : ६, वीथी २, ९, १३^{१९},
 माथी-दानाम् माथी १, ६, ४,
 २१, वीथी ४, ४, ६, शब्द, -वर्द
 आप्तथी ६, १२, २, आप्तथी ५,
 ११, ५, वीथी
 शत-वल्दर^{२०}- -रं विन् १०, १ :
 ११, ९, २९, आप्त २, ४,
 ६ : २
 शत-वत्प्रा- -प्रा वीथी १८, ३७
 १३, -प्रा अत्र ६८, ५, २४
 शत-वत्पि- -पि, -विन् पाठ २,
 ६, १६
 शत-वल्द^{२१}- -वल्द आप्तथी १८,
 ८, २, द्विथी १३, ३, ६, वृष
 ५५, शब्द ३, ४६, -वल्दि शब्द
 ३, ४६.
 शत-वत्- -वत् वा १०, २९,

३१.
 शत-सावि(र>)वी^{२२}- -वी या
 १०, २९.
 शत-साहस^{२३}- -साहस ५४
 शतसाहस-सवोग^{२४}- -गः माथी
 २, १३, ९
 शत-हि(म>)मा^{२५}- -मा आप्त
 १, ८, ३१.
 शत(त-श)क्षर, रा^{२६}- -र वाम्थी
 ४, १०५ : ३, -क्षरया आप्तथी ३,
 १४, १०, आप्तथी ९, १३, ८,
 माथी, -रा वामिथ ३, ८, २
 ६४, वीथी १, १५-१८, -रा.
 वीथी २४, १९ * ६.
 शत(त-श)मिष्टोम- -मे काथी
 २४, ३, ३५.
 शत(त-श)सुगुल- -सुगुल काथी ७,
 २६.
 शत(त-श)विरात्र- -त्रे काथी २४,
 ३, ३३.
 शत(त-श)वृष्ण, ण्णा^{२७}- -ण्णम्
 वीथी १२, १० : १५, वीथी ३,
 ३, ३, २८, ४, ५, ५, द्विथी,
 -ण्ण वीथी १७, ३६ * १०१,
 -ण्णाम् आप्तथी १९, ३, ६, ११,
 वीथी १७, ३१ : ६, ३५ ४,
 ३६ ७, १४, ३८ ९, माथी,
 -ण्णायाम् वीथी १७, ३६ ७,
 ९, वीथी १२, ५ : ६, -वृष्ण
 द्विथी १३, ८, ३२.
 शतवृष्ण सहस्रावृष्ण- -वृष्णी
 वीथी ८, ३

a) वीथ १ द । b) पूर मलोपाडमाव वर्ण । c) लक्षितार्थे द्विष, वप = १४५- । d) = शत-वल्- ।
 e) पाठ १ शतपत् इति शोध (हु ७) । f) नाग (विदु शब्द- रोहितान्धकस्य-) । वस । g) वृष्ण
 इति पाठ १ यनि शोध. (हु आप्तथ) । h) सप्त षष्ठा (ऊ ३, ८, ११ प्रथ. तैत्रा १, ३, १, ५ च) <> वल्दाम्
 (तै १, १, २, १ प्रथ तैत्रा ३, २, २, ६ च) इति पाठे । i) वस वप = द्विष- । j) उमाहारे द्विष ।
 k) = वल्द- । l) विष । उव, वप < √ वल् । m) वप स्वार्थे प्र । n) वप । o) विप, नाप
 (स्वाती वीथी १७, ३) ६ प्रथ) ।

शता(त-अ)दि- -दीनि अत्र २, ४, ४.
 शता(त-अ)दि- -छनोः पावा १, १, २४.
 शता(त-अ)धिक, का- -हम् शेष ११४, -का काशु ७, २६.
 शता(त-अ)ध्यक्ष- -क्षान् विध ३, १; -क्षान् विध ३, १३.
 शता(त-अ)नीक- -काय अक्ष १, २५.
 शता(त-अ)पा(>)छ- -छाम् अत्र २, ४, १०^१.
 शता(त-अ)भियेक- -हम् आमिष्ट २, ४, ६ : १.
 शता(त-अ)मवास- -सेन बाधौ ३, ४, २, ६.
 शता(त-अ)मुच- -घाय आपथौ ६, २१, १२; १७, १, ४; बौधौ ३, १२ : ५; १०, ४६ : १; भाषी.
 शता(त-अ)मुच- -वम् वाप ४, २०^६; ५, ६.
 शता(त-अ)मुच- -नुः अत्र २, २१.
 शता(त-अ)मुच- -नुः बौधौ १५, २ : १६; ३६ : २७; १८, ४० : ८^१; वाच्यौ ४, १०५ : ३; शभाष्ट १, २४ : १२; २० : १८; भाषि ४६^१; -मुचम् अक्षरं २, २, १६; आमिष्ट १, १, २ : २९^६; काय ४१, ६^६; बौध २, १, ५; १२^६; माय १, ५ : १३^६;

वाष्ट १६, १०; द्विष्ट १, ४, २^६, -मुपा मा १४, ३४^१.
 शता(त-अ)पु- -पुम् द्राघौ ११, ५; लाघौ ४, १, ५; आमिष्ट १, ५, १ : २१^६; माष्ट १, १३ : ४^६.
 शता(त-अ)ध- -धम् शेष ३१४; अक्ष ४ : ४.
 शता(त-अ)र्ह- -होः काशौ २२, १०, ३२; लाघौ १, ४, १५.
 श(त >)ता-वल्- -वल् अत्र २, २२^१.
 शता(त-अ)रमा(त-अ)वराच्य- -व्यनाम् आधौ ९, १, १५.
 शता(त-अ)व(र >)रा- -राम् वैष ३, ६, ३.
 शता(त-अ)वराच्य- -ध्वम् वाप १९, १९.
 शता(त-अ)व- -वम् शांथौ १४, २८, १३; काशौ २२, १, ८^१; लाघौ ८, १, २८; वैताशौ ३७, १४; या ६, २२^१; -ध्वन शांथौ १६, १०, १.
 शता(त-अ)व-व- -वम् काशौ २२, २, १.
 शता(त-अ)व- -हम् का ३, ७, १६.
 शक्ति- पा ५, १, २१.
 शक्ति- -विनः बौधौ १३, २५ : ११; -विनम् काय ३२, ३.
 शक्तिनी- -नीनिः आधौ ३,

८, १; ८, १, २.
 शते(त-अ)द्विष्ट- -व्यः वाधुयौ ४, १०५ : ३.
 शते(त-अ)द्विष्ट- -धे अत्र २, २०; भाषि ५१.
 शतो(त-अ)कृ- -कृथे द्राघौ २४, ३, ३५.
 शतो(त-अ)वि- -व्ये माधौ १, ६, ४, २१; वाधौ १, ५, ५, ७; पाष्ट ३, १, २.
 शतो(त-अ)व- -रे अत्र ३२, ३, ५.
 शतो(त-अ)व- -मम् आपथौ १०, ७, १३; बौधौ २८, १ : ५; २ : ८.
 शतो(त-अ)व(र >)ना- -नाम् कौच ६६, ३३; -नायाः कौच १४, २८; ६५, १६; -नायाम् कौच ६६, ४.
 शत्य- पा ५, १, २१.
 शतद्वि- -व्यः अत्र १, ६, १.
 शतद्वार- (> शतद्वार- पा.) पाष्ट ४, १, १२३.
 शतद्वार- -रा अत्र ४८, ६४; निष ३, ६.
 शतद्वार- (> शतद्वार-) शतारुण- -गाय कौच ११६, २.
 शतावर- (> शतावर- पा.) पाष्ट ४, १, १२३.
 शतावर-> शी- -री अत्र ५, २, १; -रीम् अत्र ७, १, ६.

०) वस. १ ४) व्यप. १ वस. १ ०) वैष १ द. १ ०) = सपा. शी ५, १८, ७ पै २, १७, ६ द्वु अत्रा इति पाठि. १ १) = कर्म-विशेष- १ मलो. वस. १ १) अत्रादरे द्वि. वैकल्पिकः समासान्तः अच् प्र. १ १) एषा. लि ५, ३, ६ मा ३, ६२ अत्र. संश १, ६, ८ आत्मं २, ७, २ शोच १, २८, १ माष्ट १, १, २४ द्विष्ट १, १, ६ अत्राद्युचम् इति पाठि. १ १) एषा. 'अुचम् <> 'अुचोच् इति पाठि. १ वैष १, १३८१ ० अत्रि द. १ १) लो. एवीम् प्र. उरं. (पा ४, १, २६) १) वस. > वस. > वस. १ १) वस. उर. = न्यूनानिन्वून- १ १) = न्यूनानिन्वूनं एवम् । वस. १ १) शेता इति पाठः १) वसि. शोचः (दु. शीते). १ १) विप. (शो-), नाप. (वर्मन्-). वस. १ ०) = शेष-विशेष- १ १) इ ११२६ द. १ १) विपील्लिखारविशेष- इति अत्र. १ १) = शोचवि-विशेष- १

शा शा^३ज्ञाहर^३- (> शाताहोय-
 पा) पाग ४, १, १२३.
 शतिक- शत- द
 शतिङ्ग- इम् मत्ता २१, ४
 शतिन्- शवेन्द्रिय- शत- द
 शतेर- पाठ १, ६०
 शतेपुधि- प्रम् शत- द
 शत्रि- पाठ ४ ६७
 शत्रु^१- पाठ ४, १०३, पाग ५, ४,
 ३८^०, -प्रथ आपथी १६, ३,
 १०^१, षडिधौ ११, १, २२, २५,
 ७, ८, अथ, -तु. वीथी १५,
 ६ १३^१, सु २८, १, पाए १,
 १६, ०३^१, हिय, -तुण्ड शथ
 २५३, वदे ७, ८४, -तुम् सु
 २७, ४ अथ २८, २, ३, वैशि
 ६९^१, -तुपु विष ३, १६,
 -तुणाम् अथ ६८, २, ४७, वदे
 ५, १२७, ७, ६०, या ४, ५,
 १०८, आज्यो २, ४, ४, ९,
 १०, ५, -तुम् आथी १, ६, १,
 २, ११, ८, ३, ७, ११, ४, ४,
 २^१ x x, शांथी ५, ६, २^१, आपथी,
 माथी २, १, ३, १५^१, आपम
 २, १५, ५^१, पाए ३, १०, ११९^३,
 -तो अथ ३६, १०, २, या ९,
 १७^१
 शात्रय- पा ५४, ३८
 शत्रु-खल- ले वाध १६, ३३
 शत्रु-नाथ- थाम् दिष्ट १, ११, ८^१
 शत्रु-जन्त- थाम् कौत् ५६, १३^१
 शत्रु-पान्त- -नम् सु ३१, ७,

अथ ८, २, ५
 शत्रु-दमन- पाग ३, १, १३४
 शत्रु-विषद्वेष- -नम् अथ ७०, ४, ७
 शत्रु-नय- > शत्रुगवि^३- (>
 थिय- वा) पाग ५ ३, ११६^१
 शत्रु-तपि^३- (> थिय-)
 शत्रु-व्याधन^३- -नम् सु २८, ५,
 -तना आपथी १८, १४, ११,
 वीथी १२, ९ २३, माथी ३,
 ३, २, ३९
 शत्रु-मित्रो(द-उ)दासोम-म-पम-
 -मेसु विष ३, ३८
 शत्रु-नाशन- -नम् अथ ७०, ४, ६
 शत्रु-दृष्टि- -थै^३ हिवि १७ १७
 शत्रु-द्वर- -द्वण वीथी १, १२ :
 ३२, माथी २, ५, ११, दिथी,
 -द्वणम् आपथी १६, ३०, १,
 वैथी १८, २० ४३, दिथी ११,
 ८, ४
 √शत्रुय>शत्रुयत्- -यत् वैथी
 ७, १३ ५ सुपा ३, ११३,
 तैत्रा ३, ७, माशि २१, -यत्तम्
 आपथी ३, १५, ५, वीथी २८,
 = ४५ वीथी १, ३, ३, ४, १३,
 या ४, ५३^१, -नन्त त्रपा
 ९ १६
 श(त्रु)>तृ पाह^१- -पाठ अथा ३,
 ४, १, -पाह त्रपा २, २, २७
 √शद्^१ पाया भा सुदा पर शत्रुगे,
 शत्रुवोत्त वाध ६, ३८, शत्रुवेष्ट
 विष ५, १९
 शत्रु-वा ३, १, १४०

शत्रु-वा ३, २, १५१
 शत्रु-> शत्रु-मल^१- -नम् वा
 १२, ८
 शत्रु-(> थिय- वा) पाग ४, १,
 ४१
 शत्रुवत्- -यत् काथी १८, १, १,
 गोष्ट ३, ९, ४
 शत्रुवित्- -ता वा २, १६, ६, ३०
 शत्रु-वा ३, १, १४०
 शत्रु-दान^१- -न विष ४, ३, वा
 ६, १६^१ ३
 शत्रु-पामाव- -न या ६, १६
 शत्रु-√शद् द
 शत्रु-द शौच १२ २३^१, -दत्त
 आथी ९ ८, २१, -दत्त वीथी
 १८, ४५ १५^१, १६, ३७
 शत्रु(द-उ)पनाद- -दयो वैताथी
 ४०, ३
 शत्रु(द-उ)पनाद- -दौ वीथी १८,
 ४५ ३७, ४१, ४४
 शत्रु-पाठ ४ ६५
 शत्रु-√शद् द
 शत्रु- तै^१ आपथी १२, १५, ८,
 काथी १५ ७, ५ माथी १ ५,
 ५, ३, दिथी ८, ४, २३^१,
 आपथि
 शत्रु-क- कै कथ ३, २, ७, या ६,
 २२
 शत्रु-वत्- -न वैष्ट ४, १३ ३,
 वैष्ट २ ९ २०, अथ ५१, १, ४,
 २, १, ५२, ११, ५ दत्त, ३, ४,
 आज्यो ७, १०, ८ १, -नम्

e) भागटा फलि पाठ । b) तु पायम । c) = ओपधि विद्यप- । d) वैप १ द ।

e) वृ २३५१ II द । f) पाथे वैप १, ६९३ II द । g) पाथे वैप १, १५५२ II द । h) तपा शौ ६, ३०, ३
 अत्रिण इति पाथे । i) ज्यप । j) विप । उष । k) = आशुपजीविसपथिसेप । l) शत्रु-उपि- इति
 पाका । m) = बोम् इति पाठे ज्यै, बोम् इति विवेक द । n) या ५ २४ वा १, ३, ६०, ७, ३, ४२ परामुष्ट द ।
 o) वस । p) = एकाद विधेय । q) = फल- (इ माए १२, १६११) । r) नाप (शनि-श्र्द,
 वावर-) । उष ।

आमिष्ट २,५,१:११, वैष्ट १,४: १०१, जैष्ट २, १ ६, १०, १६, २३, २६ ४८, वीष्ट २, ५, २३, -रत्य अत्र ५१, ४, ५, -रत्य आमिष्ट २, ५, १ १७, २०, २१, २६, ४६, वैष्ट, -रे आमिष्ट २, ७, ६. २१, विष्ट ७८, ७, आणो ८, ८
 शनैश्चर-सुक्- का अत्र ५२, २५
 शनैश्चर-> शम् आश्री ४, १, २३, ५, १, १, २
 शनि- पाठभो २, १, २०१°
 शनि भर्गव(व-अ)द्विरस्- रा अत्र ५१, ३, २.
 शत- शतनु- श्रुत शम्-द्र
 शत- ✓शुद्ध
 शतोद्देवी- शम्- द
 शप् पाठ १, ४, ५७
 ✓शप् (सर्पिणि)
 ✓शप् पापा म्ना, दिश उग
 शक्नोति, शपते वृष्ट ६, ३३,
 शक्ति आश्री ६, २१, ११,
 माश्री १, ४, ३, ८, वाथी,
 वैष्ट २ ८ ८, शशापामि
 आश्री १५, १९, ८, वीश्री २,
 १८ २३, माश्री, शशापामदे
 आश्री ३, ६, २४, वाश्री ८,
 १२ ११, वीश्री, वाश्री १३, ३,
 २२; वाश्री ५ ४, ६, शशापाम

आश्री ४, १५, १, माश्री ४, २१, १, द्विश्री
 शशाप अत्र १, २८, अत्र १, ४०, शशाप आश्री ७, २१, ६, वीश्री ४, ७ २४, माश्री,
 शक्त कौष्ट ३, ६, ९, १.
 शपयेत् विष्ट ९, ५, १७
 शशाप- -पत आश्री ४, १५, १,
 माश्री ४, २१, १, द्विश्री ६, ४, १८
 शपय- पाठ ३, ११३, पाठ २, ४, ३१, -य माश्री १, ६, १, २१, -शपय् वीश्री १९, ५ १७, भाशि ४५, -शपयत् आश्री ७, २१, ६, वीश्री ४, ७: २४, माश्री ७, १६, १३, द्विश्री ४, ४, ४४, वाश्री ४, २, २, वाश्री २, २, ११, -शप्य आश्री ६, २०, १, शप २६५, -शेत वीष्ट १३, १३
 शपय-कारिन्- नी विष्ट ५, ११८
 शपय मन्म(न >)नी- नी आश्री ६ २०, १, १, १, शशाप-वाच(न >)वी- नीम् अत्र ३, १, ७
 शपया(य श)मिताय- नी वा ७ ३
 शपयेथ्य- -यम् अत्र ३, १, १६, ४, १
 श(क >)वा- वा उ ३, ४

शपुम्->शपु काम- -म् वृदे ६, ३७
 शप्यम न- नम् वीम् ४८, ७, -नाय वीम् ५२, ८
 शप- -य वृदे १, ३९, ४९, -पाठ वृदे ६, ३४, -ये अत्र १५, ६
 शपा(य श)सुमह-समर्प- र्थ सुअ ४, २१६
 शपा(य श)मिताय-प्राय- यम् शज २, ७, १०४
 शपो(य उ)धत-कर- -रम् विष्ट ५ १९१
 शप्- (>शापायन- वा) पाठ ४, १, ११०
 शपेथ(>शपेथिन्- वा) पाठ ४, ३, १०६
 शपण्ड- (> षड-भाक्त- वा) पाठ ४, २, ५४
 शपण्डायन्- (> षड-भाक्त- वा) पाठ ४, २, ५४
 शिक्षा (यत्र) - पाठभो २, २, २१८, पाठ २, ४, ३१, ४, १, ४५, ५६, -क काल्शी ११६, -कम् आश्री १६, १८, ४, १, १९, ९, ५, २०, १९, ११, वीश्री १८, १५ १२, द्विश्री १३, ६, २६, २, ३, १, ४७, अत्र ३०, ६, ८, -शपा वीश्री १०, १५ ८, वीष्ट १, १४, ११, -पतम् अत्र १२, ५, ३, १, -कामम् शप

a) उप = उल्ल-। b) = मह विशेष-। c) <✓को। d) हस >मलो कस। e) उ पागम। f) मा वे, २१ पराष्ट्र द। g) पा १, ४, ३४ पावा १, २, २१ पराष्ट्र: द। h) पया इति पाठ इ दनि शोध (द्र मा २०, १६)। i) पावे वेप श शपत वी ३, १, ९, १ टि द। j) सग श्र १०, १७, १६ मा १२ ९० प्रम शपय्याव इति पावे। k) श्री इति पाठ इ दनि शोध (उ ०)। l) सपा वी २, ७, १ वे १९, १५ ११ शपुवोप्री इति पावे। m) वेप १ द। n) हस >पव। o) =शपि विशेष। p) शशापार्थे इक् प्र उक्तं (पा ४, १, १२३)। q) साम्येय- इति पावा, शपेथ- इति [१७] पागम। r) द्र पाशि, मावडा, [१७] शपयन्वा इति मावडा पाशि च। पागम [< शपण्ड-] इति। s) शप (घर- [छाद्र मय] शेषत [सदाश्री इति ममा])। t) सपा वे २ ७, १२ शपय् इति पावे।

४, २९; -कान्वाय् आपथी
 १५, ३, १७; १९; ४, ६; ७, २; १०,
 ६; बौधो ९, ५, २, ६; २२x५;
 भाथी; -पुंज शोधो १२, १८,
 १; काथो ७, ८, १०^६; आपथी
 १०, २५, ६^६; वैथो १२, १८ :
 १^६; द्विथो ७, २, ६२^०; -थो
 आथी १५, ५, ११; १५, १;
 योथो ९, १५ : ९; १६; भाथी.
 शक-क^० -कः आपथी ९, १४,
 १४^०; द्विथो १५, ४, २१^०;
 अथा ३, ४, १^०.
 शकक श्यामाकयाय- औ
 भाथी ९, १६, १७.
 १शका(कश्वा)कृति^० - अया अय
 २५, १, ३.
 २शका(कश्वा)कृति^० - ति अय
 २५, १, ५.
 ३शका(कश्वा)कृति^० - प्राण्याम् औथी
 ९, १५ : ११.
 फाफिन्-फिनः आपथं २, १७,
 १३.
 क्षफो(क-उ)पयम^० - नान् आपथी
 १५, १, १०; यौथी ९, ९ : २०;
 भाथी ११, ९, १३; भाथि ४८.
 शफो(क-उ)पयम^० - नम् यौथी
 ९, ५ : ३.
 शफो(क-उ)पयम^० - माः वाधुथी
 ३, १०० : ६.

शफो(क-उ)कृ- वा ४, १,
 ७०.
 २शफ^०->शाफेव^०- पाग ४, ३,
 १०६; -याः चव्व २ : ३६.
 शाफेथिन्- वा ४, ३, १०६.
 शफर^०- पाठमो २, ३, ३९; पाग ४,
 २, ९०.
 शफरीय- वा ४, २, ९०.
 शफाल^०- लानाम् बीथी १८, १३ :
 ४.
 शवर^०- पाठमो २, ३, ३८; पाग ४, १,
 १००; १०४; -राः अथ २, १०,
 १६९; वृदे ८, ७२; -राः शोधो
 १५, २६, १;
 शवर- वा ४, १, १०४.
 शवरवायण- वा ४, १, १००.
 शय-पुलिन्-वेदि-गाय- अथाः अय
 ५१, ५, १.
 शवरा(र-ग)मि- पाग ८, ४, ३९^०.
 १शयल^०- पाठ १, १०५; पाग ४, १,
 ४१^०; -लः आपथी १८, १०,
 २१; २३; द्विथो १३, ४, १०;
 आपथं २, १६, २^०; भाय २,
 ७ : ९^०; मिथः -लम् आपथी
 ५, २४, ४; यौथी १२, ५ : ३०;
 माथी ५, १६, २; माथी १, ५, ६,
 २; द्विथी ३, ५, २५; अय; -लाः
 आपथी २०, १४, ६^०; -ले देवि
 २, २^०; -लेन विव ५८, ४.

शयली^०- वा ४, १, ४१;
 -पुंलि आपथी २२, १७, १०^०;
 द्विथी १७, ६, ४४^०; लाथी ९,
 ८, १०^०; -०लिउ-०लि लाथी
 ९, ८, १५; -ली आपथी २२,
 १७, १^०; पाय ३, २, ५^०.
 फाव(ली)>लि-सोम^०-
 -मम् द्विथी १७, ६, ४४^०.
 शयली-सोम^०- -मम्
 आपथी २२, १७, १०^०; लाथी
 ९, ८, १.
 फावय- -वम् आपथं १,
 १७, ७^०.
 शयल-कण्ठ- अथ १७, २, ४.
 शयलो(ल-उ)द^०- -पुंरम् आमिथ
 १, ५, २ : ४; यौथ २, ३, ३७.
 २शयल->शयलीय- वा.) पाग
 ४, २, ८०.
 ३शयल->शयलेय- वा.) पाग
 ४, १, १२३.
 ४शब्द^० पाथा. सुरा. उम. उपसर्गाद्
 आन्विगारे च, शब्दक्रियायाम्.
 शब्द^०- पाठ ४, १७; पाग ५, २, १^०;
 पागाग ४, २, ३७^०; -वदः आपथी
 २१, ९, ११; १५; द्विथी १६,
 १, १३; १६; अय, या १४,
 २१^०; नाथि २, ३, १६^०; -वदम्
 लाथी ६, १०, १८; आमिथ १,
 ४, १ : १७; अय १४, १, २x५;

a) = अष्टमावयव- (तु. सा. अष्ट. भाषा ३, ३, ३, ३, MW.) । b) वैप १ द. । c) = प्रयत्नरु-
 द्धिग- इति शाब्दम् । मत्वर्थे प्र. । d) वृद्धिः पाठ (तु. भाष्यम्, आपथी.) । e) पय. । f) वस. ।
 g) [मिथिपात्रयोः] द्वस. । h) समाहारे द्वस. । i) अय. । इ २३६४ वृ द. । j) यदुर्वैवीय-शास्त्र- वा
 तवथेद्- वा । k) = मत्व- । l) = अनपद-विशेष- । m) = अदि-विधिग, जाति-विधिग- । n) वहु.
 <आवयव- । o) तु पागम. । p) = बालप्र-विशेष- । पाथे. इ १०८९ b द. । g) नाप. (धेनु-) ।
 r) *लिः [सहृत् द्विथी.] इति पाठ ? यवि. शोधः (तु. आपथी.) । s) पाठः ? *लि (सं१) इति शोधः (तु. द्विथी.,
 ता २१, ३, ७) । t) = सपा. काठ ३२, १० । तै ४, १, ११, ५ तु *लीः इति पाथे. । u) वस. । v) परस्परं
 पाथे. । w) पाथे. वैप १ शाब्दुल्लंघनं अ १०, ८५, २९ टि. द. । x) तु. BFG. । y) तु. पाथा. । z) पाथे.
 इ १०९८ j द. । a^०) पूर्वैव उमस्त इव पाठः ? (तु. नाथि ८, ७) ।
 वैप-प्र-२२

वाच, -न्दमो. मीम् ९, २, ८,
 -न्दस्य आपथी २४, १२, ४,
 १४, ४, द्विधौ ३, १, २८; आपथ्य
 ११, १, द्विधु, मीम् १०, ४, २८,
 -न्दा. आथी ३, २, १८, शीथी,
 -न्दात् आपथी २४, ४, १, पाथ
 ३, ८, ५, मीम् ७, १, १२, -न्दात्
 काथी १३, ३, २३, वृदे २, १९,
 -न्दात्मात् शीथी १, १, २०, ३,
 २०, ११, द्विधौ ३, १, २, वृदे ३,
 ८०, या, -न्दे काथी १, ४, ९,
 आपथी २, १०, १, ७, २०, ४,
 १२, ३, १०, कौत्, -न्देन सु
 १७, ५, मीम् १, ३, १३, मम
 २४, ४, २, ४, वृदे, -न्देषु आप
 ४, ६, ७, बवि १, १०, मीम्
 १, ३, २४, -न्दे वृदे १,
 ४६, मीम् ६९, मीम् ७, २, २
 घा-१^० -न्दा क्रमा २२, १०.
 शाब्दिक- पा ४, ४, २४.
 शब्द कौत्^० - मंग वा १, १, २,
 २३, २५, ५, १९, २६, ९,
 १२, ११, २५, पा १, ३, ३४,
 पावा १, ४, ५२, -मैसु आपथ १,
 १०, २१, द्विध १, ३, ४८, -मी
 वा २, ६
 शब्दकर्म निर्देश- शो पावा १,
 ४, ५२
 शब्द-कार- वा ३, २, २३.
 शब्द का(रक>)रिका- -के वा
 ६ २०
 शब्द-कारित- -रिवा या ५, १६
 शब्दकारिणी- -व वा ६ १६
 शब्द-हृत्-त्व- -न्वात् मीम् ५,
 ३, ९
 शब्द वि(वा>)त्^० -वात्मात्
 पावा १, ४, ५२

शब्द प्रहग- -णम् पावा ७, १,
 २३.
 शब्द-माम- पावा ४, २, ३७
 शब्द-वसु() पावा १, ३, १०.
 शब्द-द्वय- -न्याणि तैमा २२, ३
 शब्द विवेश- -वा पावा १, २,
 ७१, २, २, २९, ५, १, १११,
 -शात् पावा १, २, ६४.
 शब्द न्याय- -व वाथी १, १, ६.
 शब्द-पर-विप्रतिषेध- -घात् पावा
 ६, १, १५४
 शब्द-पातिन्- -तिनौ या ६, २३
 शब्द पूर्वक^० -क^० पावा १, १,
 ६८.
 शब्द-पूर्वत्व- त्वम् मीम् १, १,
 २१
 शब्द-पूर्व^०-त्व- -त्वात् मीम् १,
 २, २७, ९, १, ९, १०, ८, ११,
 ११, १, १०.
 शब्द-द्वयक^०-त्व- -न्वात् मीम् २,
 १, २३; १०, ७, २६.
 शब्द-पौर्वापर्य-योग- -शात्
 पावा २, २, २९
 शब्द-प्रमाण^०-त्व- -त्वात् मीम् ३,
 १, १६, ६, ३, ९.
 शब्द-योग- -गात् पावा २,
 -मे पावा १.
 शब्द-भाम्य-त्व- -न्वात् मीम् ७,
 १, ९, ८, १, १२
 शब्द-भेद- -दात् पावा १, २, १,
 ४, ४, ७६, मीम् ३, ७, १८, ११,
 १, ५, ७
 शब्द-भव- -यम् छपा १, २७
 शब्द-मात्र- -यम् मीम् ७, २, ४.
 शब्द-मूत्^०-त्व- -न्वात् मीम् १, ३,
 १.
 शब्द-रूप- -यम् वृदे २, १-८.

शब्द रु(प>)पा^० -पा: अप
 ९, १.
 शब्द-लक्षण^० -णम् मीम् १०, ८,
 ३, -गानि द्विधौ ३, १, १.
 शब्द लाभ- -भात् मीम् १, ४, १०.
 शब्द वंश^० -शस्य वाच १६, ३७.
 शब्द-वत्- पा ५, २, ९५, -वत्
 मीम् ४, १, १५, -वत्मात् मीम्
 ८, ४, ६, -वत्तम् वाथी ३, २,
 १, ४३.
 शब्दपत्नी- -रप. या २, २४.
 शब्दवत्-त्व- -न्वात् या ५,
 ११, मीम् ८, ३, २, १९, १०,
 ३, १
 शब्द-विकास- -र शीथी ६, १, ५,
 -रम् शीथी ६, १, ३.
 शब्द-विप्रतिषेध- -घात् मीम् ५,
 १, २६.
 शब्द-विभाग- -गात् मीम् ११,
 २, ३२
 शब्द-विशेषण- -णम् पावा ७, २,
 ९८
 शब्द-वैधित्- -धिनौ या ६, २३,
 -धी वाच ३७७ ३.
 शब्द शब्दार्थ- -र्थौ पावा २, ४,
 २६
 शब्द-वाहत्र- -स्त्रेण अप २२, १, २.
 शब्दसास्र(दा क)गिरत-
 -तस्य वाच १०, २०.
 शब्द-सयोग- -गात् आपथी १४,
 ७, २१, शीथी १७, २९, ३,
 द्विधौ २१, २, ४३.
 शब्द सज्ञा- -ज्ञात्मात् पा ८, ३,
 ८६, पावा १, १, ४४.
 शब्द सामर्थ्य- -र्थात् मीम् ५,
 ४, १८, ६, १, ५१, ८, ४, १९.
 शब्द सामान्य- -न्वात् या १, १६.

a) १ ११२५ ६ ५. 1

b) = शाब्दिक- 1 c) मम. 1 d) मन्त्रो. कश् उप. = २३६६-1

शब्द-स्पर्शा^१ वीप ३, १६
 शब्द-स्पर्शा स्पर्श-गन्ध-^२ नञ
 विप २६, ९३
 शब्द(स्पर्श)स्पर्शगन्ध-द्वारि-
 (न>)णी- नञ या १४, २०
 शब्दस्पर्शस्पर्शगन्धा (-घ-भ)
 लीत- नञ् विप २७, २.
 शब्द-हेतुत्व-^३ नञ् मीत् ६, ५,
 ४६.
 शब्दा(ब्द-अ)ण्यत्व-^४ नञ्, वे
 या ६, ३०
 शब्दा(ब्द-अ)नुकरण-^५ नञ् या ९,
 १२, १४, १२, १३
 शब्दा(ब्द-अ)नुकृति-^६ लि या ३,
 १८^३, ५, २२
 शब्दा(ब्द-अ)नुशासन-^७ नञ्
 पापवा १
 शब्दा(ब्द-अ)न्तर-^८ नञ् पाप ४,
 १, ६३, -रे मीत् २, २, १
 शब्दान्तर-^९ नञ् मीत् ८,
 ४, १३
 शब्दान्तर-भाव-^{१०} नञ् पाप
 ६, १, १३^३
 शब्दा(ब्द-अ)न्वय-^{११} नञ् पाप
 ४, १, ६२, -वे मीत् ९, १,
 ५३
 शब्दा(ब्द-अ)प्रतिवृत्ति-^{१२} लि,
 पापवा ११
 ✓शब्दात्म पा ३, १, १०, शब्दात्मने
 या २, ९
 शब्दात्मन-^{१३} नञ् या ११, ९
 शब्दा(ब्द-अ)र्थ^{१४}-^{१५} र्थे मीत्
 १, ३, ९, ३, १, १०, ३, ४४,

११, ९, २३, -र्थम् पाति २,
 -र्थस्य भाषण ६, २, १४, ११,
 ४, १३, ६, १४, १०, हिणु,
 -र्थेन मीत् ११, १, ३८.
 शब्दार्थ-^{१६} नञ् मीत् ९,
 २, ६, १५
 शब्दार्था(र्थे वा)रम्भण^{१७}-
 -भाषण् भाषण २, ८, १३, हिष
 २, १, ११४.
 शब्दा(ब्द-अ)र्थ^{१८}-^{१९} भाष २, २, ३१
 शब्दार्थ-सम्बन्ध^{२०}-^{२१} नञ् वे पापवा
 १
 शब्दा(ब्द-अर्थ->)र्था->
 र्थे प्रकृति^{२२}-^{२३} ली पा ६, २, ८०.
 शब्दा(ब्द-अ)विराम-^{२४} नञ् पाप
 १, ४, १०९
 शब्दा(ब्द-अ)सामञ्जस्य-^{२५} नञ्
 मीत् ११, ३, ३९
 ✓शब्दि, शब्दपति वप ४८, ८
 शब्दते या १, १८^३
 शब्दै(ब्द-ए)कत्व-^{२६} नञ् मीत् ४,
 ३, ३१
 शब्दै(ब्द-ए)क्य-^{२७} नञ् मीत् ६, २,
 ८७
 शब्दो(ब्द-उ)पत्ति-^{२८} लि तेषा
 २, १
 ✓शम्(वषा)^{२९} पापवा भ्वा पर दर्शन,
 दिवा पर उपसर्ग, चुरा. आत्म
 आलोचने, अशमत् अथ ४,
 १०.
 शमिन्व वीथी १, ६ १८^३,
 शमीन्व शुभ्रा ३, १२९^३,
 शमीन्व्यम् आश्री ३, १^३,

१०, ८, ७, शमी ५ १७, १०^३,
 कौत् ६२, ६^३, या ५, ११^३
 शाम्यते वीप २, ३, ६३, शाम्यति
 वैप ५ १. २२, वीप २, ३, ६२,
 शाम्यन्ति भाषणी २१, २०, ६,
 वीथी ११, ८. १६, १२, १३
 १३, वाथी, शाम्यन्तु शाप ६,
 ६, ६, कौत् ८३, ६, ८५, १५,
 शाम्यन्तु माण २, ७, ४, वैप
 १, ६ ६, शाम्येत् माथी ५ १,
 ७, ३३, वप ३७, ६, १, शाम्येयु
 कौत् ११६, ४.
 शाम्यति निप २, ११^३
 अशमिष्ठा या ४, २५^३
 शमयति वीथी ४, २ ५^३, १४,
 १३ १३, १८ १०^३, १६.
 १८, २८^३, वैताथी, शमयन्ति
 निप ७, १३ १७, शमयामि
 भाषणी ३, ११, २, वीथी १,
 २१ २०, हिथी, शमयामसि
 भाषणी २, ३, २२^३, हिथी
 १५, १, ७१^३, कौत् ५, ५,
 ५, शमयन्तु वैप ६५ ९,
 शमयन्तु आश्री १, १३, १,
 वाथी २, ३, १८, भाषणी,
 शमयस्व वप ६४, १०, ७,
 शमय कौत् ५, ५, ५^३, आश्री
 ३, ८, ३ ३२, वीपि १, १६ :
 १९, हिथि १६ १३, वैप २,
 ५ ८, अशमयत् भाषणी ५
 २, ४^३, शमयेत् हिथी १५, ४,
 १९^३, शमयेत् वीथी १, ११
 १७, काण ४५ ५, कौत् ७१ ७,

a) अनुशासकतीक द । b) वप । c) विप (कर्मि) । d) वप । e) वप । f) उपाहारो इति ।
 g) वैप १ द । या १, १०, २, ५, १६, ३, ५, १२, २४ वा ७, ३, ७४, १५ पठयुष्ट द । h) सप्त शमिन्व (ते १,
 १, ५ २ तेषा ३ २, ५, ८ च) <> शमीन्व (मा १, १५ प्रयु माता १, १, ४, १० च) <> काठ १, ५ शमीन्व इति
 च पाठे । i) या वपे वृत्ति । j) पाठे वैप १ अशमिष्ट मे १, ३, ३८ टि द । k) पाठे वैप १ १८२१ टि द ।
 l) पाठे वैप १ शमय टि द । m) सप्त भाषणी २, १४, ११ भाषी २, १६, १५ शमयेत् इति पाठे ।

अप, शामयेत् हिथी ३, ५, ७४,
 शामयेत् आथी १२, १५, १११
 ऋषीशामम् जेष्ट १, २० ३०,
 कौस्तु ७१, ३
 १शम^२- पायवा ६ १, ११९, -म
 वापथ १, २३, ६, हिथ १, ६,
 १४, -मम् कज १, ६, १२, अप
 ५४, २, ५, ५५, १, ६, ६५ ३, ५,
 ६९, ३, २, ८, १, -मम् ३ मम्
 कौष्ट ३, ३, ६१, -मम् वीथी
 १८, ४१ ११^३, -मम् अप
 ३६, २८, १
 शम-दम दृषा-दान-वाकि-स-
 पल- -शम् अप ३, १, १३
 शम-दम-मन्त्र-वा- -रा म्
 ५१, ३, ३
 शम-नीचा मेव^४- -श्रूणाम्
 वाथी ८, ६, ४,
 शम रव^५- य माष्ट २, २९
 ५ -थम् वीथी १७, ४३, ४,
 श्रुथी ५४, ११, -थम् वीथी
 १६, १३ ३, -थम् माष्ट २,
 २१ ११
 √शमाप, शमापेत आपथी ६,
 १४, ११, ९ १४, ११^६, भाथी
 ९, १६, १५^६
 शमप- पाठ ३, ११३
 शमन^७- न् अप ६७, १, ७, ३-४,
 ५ ५, ३, ६, ५, ७, ४, -मम् कौस्तु
 ५२, ५, अप ५४, २, ३, ७०^७,
 १, २, वा ४, २१, -नाप अप
 ६५, ३, १
 शमनी^८-> श्री-वाप^८-

पावाग ३, २, १
 शमन-कोपन- नयो पावा ५,
 १, ३८
 शमन होम- मै वैथी १, ११,
 १६
 शमनहोमा(म अ)न्त- न्ते
 वैथी २०, २४ २
 शमना(न-अ)र्थ- -मम् अप ४,
 १, २२, ६८, ५, १८
 शमनी(य>)वा^९- वाभि
 माष्ट ३, १ १४
 शमप^{१०}- अम् माष्ट २, ६ : १५,
 -पन्त वीथी १६ ४. ११, १७,
 ४६ : १०,
 शमवित्तव्य- न्य आपथी ५ १६,
 ३, भाथी ५, ९, १२, हिथी ३,
 ४, ४१
 शमवित्- वा अप २, २, ३, वा २,
 १६, -वा कौस्तु ९४, ४
 शमवित्तव्य () वीथी १४, ३ ८
 शमवित्वा वीथी २, १८ १, १७,
 ४६ ५, भाथी
 शमवित्तव्य- -प्यम् कौस्तु ६९ १
 शमित- वा ७, २, २७
 शमित (त-म)म्वर-वास-
 सता वैष्ट ५, ६ १२^१
 शमित^{१२}- ऋ^{१२} आपथी ७, १४,
 १४, २३, ३, १३, ११, ३, वीथी,
 -वा आपथी ७, १५ ९, १९, ३,
 वीथी, वा ८, १०^{१३}, वा ६, ४,
 ५४, -वा ३ ऋषी ६, ८,
 १, ४, पाठ्यी ६३, -ऋ^{१४} वा
 आथी ३, ३, १^{१४}, २, ४, शीथी

५, १७, १, ९, आपथी, -वाप
 काथी ६, ८, १, -वापवा ३४
 माथी ५, २, १३, ११, -वा
 आथी १२, ९, १२, वीथी ४,
 ८ २६, -तृम् वापथी ३, ८८
 १, -त्रे आपथी ७, १४, १४,
 २७, १३, वीथी
 शमित^{१५}- अ आपथी ७,
 १६, ३, भाथी ७, १२, १४, आष्ट
 १, ११, ७, शुभ १, २४४, -त्रम्
 वाथी ६, १२, ९, काथी ६,
 ५, ११, आपथी ३, ३, ८^{१६}, १६,
 १४, १०, भाथी, -त्रम् वापथी
 ९, १९, १३, भाथी १, ८, ३,
 २६, ४, ४१, वाथी १, ६, ४, ३४,
 वैथी २०, ३८ ८, आष्ट १,
 ११, २, १०, -त्रम् वाथी ४,
 १२, ५, काथी ६, ९, ८, २५
 १३, २७, आपथी ७, २६, १०,
 वीथी, -त्रम् वीथी २१, २४
 ७, -त्रम् काथी ६, ४, १२,
 भाथी १, ८, ३, २०, २, १, ४, ७,
 ५ २, १०, २२, वाथी ३, ४, ४,
 ७, -त्रे वीथी १३, ३, ५^{१७},
 काथी ६, ५ ६, १२, ७, ९,
 १४, २५, १०, १८, आपथी,
 शमित-देश- वा हिथी
 ४, ३, ५१, -त्रम् आपथी ७,
 १५, २, वीथी ४, ६ २१, भाथी
 ७, १२, ४, वैथी १०, १२ ४
 हिथी ४, ३, ४१,
 शमित लक्षण- -मम्
 वाथी १, ६, २, १६, -त्रे भाथी

०) भाषे अच् प्र (दृ पावा) । १) कर्त्तरि क्त्वा (वैप १३) । २) विप (मात्-) । पल >
 वत । ३) वैप १६ । ४) पाभे दृ २३६७ ८३ ६ । ५) मावात्थे प्र । ६) = अङ्गहितापाठप्रचार-
 विधेय (दृ वच् १ : ५ [अवधीवपाठ-]) । ७) प्रयोजनार्थे छ प्र उरर (वा ५, १, १११) । ८) म्वरा,
 यां इति द्वे पदे इति ८ । ९) वाट (एणुप्रवार्थ) जमि- अमितदेश- [काथी ६, ५, ११-१२ प्रम्], वयस्थान-) ।
 लक्ष्मीव अच् प्र ।

२, ८, ३, २२, २८, पाथी १,
६, ४, ३२
शामिश(न-आ)वदन-
-न्म् वैथी १०, १३ : ५
शामिश्रिव^६- वात्
दिथी ४, ५, ३५^७
शामिश्रीय^६- यात्
माथी २, ३, ५, २०^७, -ये माथी
३, ५, १८
शामिश्रै(त्र ए)कदेश-
-न्म् काथी ६ ६, १३.
शामिश्रौ(न-उ)प्यगोह-
चात्नालो(ल-उ)फरा(र-आ)
स्तात्र^७- यात् थाथी ५, ३, १६
शामित्र(त्र अ)नुशासन-प्रभृति-
-ति काथी २०, ५, ४, २९, ४, ७
शामिवा काथी २२, ११, ३२
शामिन्- पा ३, २, १४१, -थी
चव्यु ४. १७
शान्त, न्वा^८- पा ७, २, २७, पा
४, २, ९०^८, -न्त आथी ३,
१४, १३^८, आपथी २, १६, ११^८,
पृथी २०, ४९ : ३, २७, ४
१५, माथी, -न्तम् काथी २५,
३, ११, वैथी १९, ६ : ५९, भाथ,
पौष २०, ११^८, -न्तस्य थप
१६१, -न्ता आथ २, ४, १४,
पाथ ३, ३, ६, माथ, -न्ता
कौत् ३ १५ ६, रांथ ३, ६,
३, पाथ १ ८, ५, आश्रि,
-न्ताणाम् कौत् ३, १९, थप
३६, २, ४, -न्ताभि वीथ

३, १३, ४^८, -न्ताम् माथ २,
७, ४^८, -न्ताप आपथी २०,
१, १७, थप ४०, ३, ६, -न्तापै
कौत् ३९, १^८, -न्तासु श्राथ
२, ३, १, अर्था २२, २^८, -न्ते
काथी २६, ५, १६, कौत् २, ८,
६, थप ६८, ५, २२, -न्तौ
अर्था २३, ५
शान्त-अ(म >)मा- -मा पाथ
१, ८, ५^८.
शान्त-दान्त-न्ता वाप ६, २५
शान्त हुम-समुद्र(व >)वा-
-आ थप २६, २, ३
शान्त-कल- > ल शिलाकृति-
लोह-बन्नीफराति-वाप- -पथ
कौत् २१, २
शान्त-मालत्^८- -सम् थप ६९,
१, १.
शान्त-सृग-राकुनि-विसे-
(व >)पा^८- पा थप ६५,
२, १
शान्त-योनि- -निम् आपथी
५, १, ४, वीथी २, ६ : ३३,
दिथी ३, २, ३
शान्त-नाप्र^८- -त्राथ आथ ४,
६, ६
शान्त वृक्ष^८- अस्य कौत् ५३,
३, ५४, २०, ६७, २०, ८३, ३,
४, १३९, ३, थप ३१, ३, ४,
६, २, -शान्ताम् कौत् १३, ५
शान्तवृक्ष-नप- -न्म् थप
१८, १, ५

शान्तवृक्ष-नादिप्- मिदि
थप ६९, २, ५
शान्तवृक्ष-समीप-तत्()
थप ६९, ३, ४.
शान्त शाला- -लपा कौत् २१,
१८.
शान्ता(न्त थ)द्- -न्ताभिः
अर्था २२, ३^८.
शान्ता(न्त थ)दि^८- -स्य थप
५७, ३, ४
शान्ता(न्त-ओ)वधी- -थी.
कौत् ८३, ४^८.
शान्ति^८- पाग ६, १, १९९^८,
-न्तय श्राथ ६, ४, ९, अर्था १८,
१, -न्तये थप २६, ४, १, अर्था
१८, १^८, थप १३१, -न्ति.
आथी २, ३, ५^८, चाथी ४, ७,
९^८, आपथी ६, १२, १^८, माथी
४, ३, ४१^८, लाथी, श्राथ
५, ७, ३५^८, -न्तिभि आथी
१४, ८, -न्तिम् आपथी १५,
५, ४, १२, ३, २०, ०, ५,
२१, २^८, १०, १२, वीथी,
-न्ते आथी ३, १४, १३^८,
आपथी ९, १६, ११^८, वीथी,
थप ३३, १, ८, -न्ती थप २१,
२, ३, ६, १×२, -न्त्या
वैथ २, ५ १२, कौत् १०२,
३^८, थप ६९, ८, २, -न्तै
आथी ३, १४, १३^८, कृष्णपथी
५, ३, ४, ६, २५, ४×४, वीथी
शान्तिक^८- कम् थप ३६,

a) = शामित्र । स्वार्थे प्र । b) परस्पर पाभे । c) द्वय । कर्णभगोह- = अन्तःप्रच्छादन-नयान ।
d) विष, माप (गृह) । e) घृ ९४९ ङि । f) पाभे, वैष ३ शान्तम् शौ १९, ९, १ ति द्व ।
g) वस् । h) वस > दव > वस । i) वस । j) = पलाशवृक्ष- (तु दादिल [कौत् १३, ५ संस्तु-
दि, द्व ङ] : k) < शान्त्या ओ^८ इति संस्तुते ङि, शान्त्यौ^८ इति गृको । l) भाप, चाप (कर्मन् [असा
प्रथ ङ]) । वैष १ द्व । m) किञ्चन्तम् इति वाका । n) = शान्तिभूक । o) विष ।
प्रयोक्ते ङ् प्र (पा ५१, १०९) ।

१६, २, ५९, १, २०, आण्यो
५, ४, -के अण २१, २, ५, ३,
१, २५, १, १०, २६, १, २, ३, ३,
२७, २, १^१, २८, २, १, -केषु
अण ३०^१, २, ११.

शान्तिरु पौष्टिक- -के अण
२७, १, २.

शान्तिक पौष्टिक-प्रायश्चित्ती-
या(य-आ)भिचारिक वैमिचित्तौ-
(क-सौ)पर्वदेहिक- -कानि अण
३, १, १०.

शान्ति-कर- -र अण २५, २, ४,
-रम् अण ७०, ४, १०, -रान्
अण २१, १, २.

शान्ति करण- -णम् काथौ २६,
७, ५८

शान्ति-कर्मन्- -र्म अण्य ७,
६, १, अण ७०, ५, १, ७, ६,
-र्मण माधौ ७, २, ४, ३, -र्मणि
जैय २, १, ४, अण २६, ५, १,
७०^१, २, २, ११, ३४, ३६^१,
-र्मसु अण १, ४, ५ ३

शान्ति-कल्प- -ल्पः चञ्चु ४ ८

शान्ति-काम- -म अण ३०^१,
१, २, ३१, ६, ४, ६८, ५, १७,
-मस्य अण ३०^१, १, १७

शान्ति-कारक- -का. अण ७०,
७, १.

शान्ति-कार्य- -यं अण २१, १,
५

शान्ति कृप्यादुपण- -णेन अण
१७, २, २

शान्ति क्रिया- -या अण ६८,
२, ६१

शान्ति-गण- -गः अण ३२,
१, १, २६; -णस्य अणम् १.

शान्ति गृह- -हस्य अण ८, १,
३, २१, ६, १

शान्ति-ज्ञ- -ज्ञ अण ६८, ५,
२६.

शान्ति तत्र- -श- -शान्त् अण
६८, ५, २३

शान्ति तोय- -येन अण १९,
५, १.

शान्ति-पात्र- -त्राद् अण्य ६,
६, ३, -त्रे शण्य ६, ३, ७.

शान्तिपात्रो(प्र-उ)पघात-
-ते शण्य ६, २, ११

शान्ति पारण- -ग. अण ७, ६,
१, ६९, ६, ५

शान्ति-पुण्याह-स्वरस्ययना-
(न-आ)पुण्य-मन्त्रल-संयुक्त-
-कानि गौध ११, १९

शान्ति-पुष्टि- -ष्टी शान्ति २, ३,
३ : २६

शान्तिपुष्टि-कर्मन्- -र्मसु
शुच ७, ११७

शान्ति पुष्टय (ष्टि श्र)भिचारा-
(र-म)र्थ- -र्थम् अण ७०, ४, ५

शान्ति फल- -लम् अण ७०,
१, ९.

शान्ति-भाजन^०- -नम् शण्य ६,
३, ८.

शान्ति युक्त- -कानि कौद् ९,
६.

शान्ति योग- -योग अण ६८,
५, १७.

शान्ति(र>)वा^०- -वायै कौद्

३९, ९१.

शान्ति-वाचन- वावा, पावाग ५,
१, १११.

शान्ति विध- -धानि निद् ५,
८ : ९

शान्ति-वैष्णव- -वम् अण २७,
४, १.

शान्ति स(ज्ञा>)ज्ञ^०- -ज्ञः
अशा २३, १.

शान्ति-समय- -ये जैश्रीका ६२

शान्ति-सूक्त- -क्तम् अण ३७,
१६-१७, १, -क्तैः अण १, ४३,
४.

शान्ति-स्वरूपयन- -रैः विध
३, ६८.

शान्ति-दोम- -मम् विध ७१,
८६

शान्तीर्थ^०- -ये, -येन अशा
२३, ४.

शान्ती(मि ३)ष्टि-कर्मन्-
-र्मसु अण २७, १, ४.

शान्त्य (नि-श्र)र्थ, धां- -र्थं
साधौ ९, ४, ४०^१, श्रज २, १०,
२०, श्रु ७, ६०, -श्रम् शान्ति
२, ५, १ : ५, गोर्य, -र्था निद्
८, ७. १५, -र्थेन काथौ २२,
११, ३२

शान्त्या(नि-आ)दि- -द्वयः
अशा २४, १.

शान्त्यु(नि-उक्त >)का-
-क्ता निद् ७, १३ १६.

शान्त्यु(नि-उ)पूर्क^०- -कम्
वैताधौ ५, १०, कौद् ९, ८, १७,
१, ७२, १३, ७७, ३, ४, अण,

a) = मन्त्रगण-द्वय- । समाहारे द्वय. (द्व अणम् १) । b) अण. = १भाजन- । c) = देवता-विशेष-
रूपि ऽ। [गृ. १.१.१] । d) = मन्त्र-गण- । e) = सूत्र- (श्री ७, १३, १ [द्व. एतच्छ्रुं टि]) । प्रयोजनार्थं छ प्र.
कर्म. (वा ५, १, १११) । f) नाव [अण., [तावयोरङ्] कर्मन्- (द्व. वारिड [श्री ९, ७] श्रयव शैल्युं टि. ३]] ।
ग्नो. अण. ।

-के कौट् ६२, ७, आ ३३,
५,५, -केन कौट् ३१, २१, ४६,
२१, ५४, ११, ४१, १०×५,
अप

शाम्बुदक-शम्-शर्करा-

-रम् कौट् ४३, ७^०

शाम्बुदक-शम्-तम् कौट्
४६, ५५

शाम्बुदको (क ल) दक-

-केन कौट् ८०, १३

शाम्बुमान- -ने वैताश्री १०, १८

शाम्- शम् श्रुश्री २, ९, १०^१, १६,
१४×५, शश्री, आपश्री ४,
१६, ५१^०, वीश्री ३, १२ २१^०,
माश्री ४, २१ ४^०, द्विश्री
६, ४, २६^०, साश्री ७,
१२, ५^१, आपश्री १, १०^५,
वीश्री ४, ४, १०^{२०}, शाश्री ४,
१८, २^०, पाश्री ३, १, ४^०,
३, ६^०, माश्री २, १७, १^१,
अप ४८ ६४^०, निप ३, ६^०,
वा २, ५^१, १२^१, ४, २१^०,
११, ३०^०, पश्री १, १, ३७,
४, ५७, शनि पा, पावा ३,
२, १४

शम्- पा ५, १, १३८

शा. मू. श्रु. - पा ५, २, १३८, -शु

वीश्री १९, १०, २९, माश्री १,
४, २, १९^०, वाश्री ४, ४५ ९,
शम्, राज १, ३६, ११५×५,
या ४, २१^०, -शुना वीश्री
४, १० १४, ५, ४ : ९,
९ : ९, १५ २९, ८, १६ :
७, -शुम् अप ३७, ५, ६^०,
-वो वीश्री ६, १७ १७^०,
माश्री १, ३, १, ३४^०, शैशि
३६६^०, -वी मीट् ३, ४, १७,
शाम्बुव- -व वाश्री ३,
८८ ७.

शुशु घावस्- -मा. आपश्री
१५, १४, ४, वीश्री ९, १४
१०, माश्री ११, १४, ४, द्विश्री
२४, ६, ६

शुशु-शर्करापा(ल-श) श-
-न्ते कौट् २, ५, १७^०

शुशु-अन्त, न्ता- -न्त माश्री
९, १७, ४, -न्तम् माश्री ३, ९,
१, २, वैश्री ७, १० ४^०, -न्ता
माश्री ८, २०, १६, १०, १४,
१६

शुशु-वाक- -क आश्री १,
१०, ९, -कम् वीश्री ३, १९,
१३, २९ २२, माश्री ४, १८,
६, द्विश्री ४, ४, ३६, २१, ३,

६५, ६६, वीश्री ४, ९, १०, -कस्व
आश्री २, १६, १३, वीश्री २०,
१५ : ५^०, -कात् आश्री १,
५, २६, ६, ११, ३, ८, आपश्री
३, १४, ७, वीश्री २७, १२
२४, -काप आश्री १, १०, १,
-के आपश्री ३, ५, ११, ४, १२,
१०, वीश्री १६, ३, १०, २३,
९ ३२, माश्री ३, ६, १५,
वैश्री ७, ७ : ६^०, १०^०, द्विश्री
शम्बु(शु श्र) श्त्, न्ता- -न्त
वीश्री ६, १२ ३, २५ ८ १०,
२५ : १९, वाश्री ३, ७९
२५, ४, ४५ ११^०, वैश्री १२,
१६ ३^०, -न्तम् माश्री ८,
७, २१, काश्री ३ ७, १०, ५,
६, २८, ७, ५, २०, आपश्री,
-न्ता आश्री २, १९, २, ४, ३,
२, शोश्री ३, १७, ९, ५, ५ ७,
आपश्री, -न्ता माश्री १, १५,
८, -न्ता वीश्री १, १, १, ८, ३,
-न्ते काश्री ३, ७, ११×५,
वीश्री ८, २१ १२, माश्री
शम्बु(शु श्र) श्त्(श-अ) श्त्-
-न्ते मीट् १०, ७, ३८
श्रु(मू, वैश्री) योश्रु() आश्री १,
१०, १, २, ५, १७^०, माश्री

a) मलो कस > पस । b) शम् इति दारिण । c) मलो कस । d) वैप १ द । e) पामे
वैप १ शुम् तै ५, ७, ३, ५ टि द । f) = ऋ ९, ११, ३ । सट्ट गीतिविकारतया निर्देव । g) सट्ट सम् इति
पाठ १ मनि शोष (तु श्रु १५७) शौ १४, १, ४० व) । h) सट्ट सषा पाठ ३, २, १२ शिवा इति पामे ।
२) सट्ट वैप २, ३४ शिवा तैसा १ ९, ७ टि द । j) पामे वैप १ शुम् ऋ १०, १६, ५, ३ टि द । k) वाश्री,
साश्री पाठ । l) विप, नाप (मन्त्र), व्यप । m) पामे वैप १ शयो तै १, ६, ४, ३ टि द । n) वैप १
शुम् ऋ १०, १५, ४ टि द । o) सषा अथाय २, ५ शर्मभि इति पामे । p) = (शयुवावन्त्रशम्बुन्दि-)
होम । q) व्यप । पाठ १ शम्बु इति शोष (तु ०) । r) = सषा तैसा ४, १९, ३ । मै ४ ९, १० तु शयोर्थाया
इति पामे । s) विप (श्वेद) । कम् > वस । विशेष Old [प्राय २ ११, १३, ४, ५, ९] टि द । t) सषा
श्राय २, ११, ३३ शयोर्वाहिस-वावे इति पामे । u) = शम्बु- । विप । वस पूर = शयुवाव । v) शम्बु
इति पाठ । w) = मन्त्र विशेष- (तुव शयो [तै २, ६, १०, २ प्रम्]) उष उष शम् प्र । x) = शयुवन्त- ।
y) शम्बु इति पाठ ।

१, १४, २१^२ x x, वाधौ.
 शायोर्-आहंस्व-या(त्य-प्र)न्त्-
 -न्ते छांए २, ११, १३.
 शायोर्-वाक्य- -कात् शोधौ ३,
 ८, २०, माधौ ६, २, ६, १८,
 -के माधौ १, ४, २, १९.
 सं-न्त्- -न्ति काधौ २१, ३, २२.
 सं-न्-रा- पाय ४, २, ९०, २,
 ९२^६, -र अय ३६, ४, १, १०,
 १, ४०, ४, ४, या ९, ३, पाणि
 ३३, -रम् अय ४०, ६, १६,
 -रा आसिष्ट १, ३, २ १४^{१०},
 -रा. वीधौ २, ९: १५^{१०},
 -रिंराय आर २, २, ४, ८, १९,
 अय २०, ६, ५
 शकरी- -रिन् पाणि
 ३३^१.
 शाकरि- -रि वैष्ट ३, ११.
 १०
 शाक्य- पा ४, ३, ९२
 शक्यराज्यी- -षीम् अय ३६,
 १, २
 शक्योय- पा ४, २, ९०.
 शि-ग(व>)वी- -वीं आधौ १,
 ९, १, शोधौ १, १४, ४.
 श-त्- पा ५, २, १३८
 श-तनु- -त्वे वा २, १२^१, -तु:
 ४६ ७, १५५, १५६ x x, या
 २, १०^१, १२^६, -तुम् ४६ ८,

१, -नी या २, १०.
 शंतनु-त्वा- -त्वाय माधौ २, ४,
 १, ३३^१
 शंतनु-देवापि- -पाय २, २, ३१
 शिं-लम्, मा- -मा आधौ ८, १४,
 १८, शोधौ १०, ६, १८, वीधौ,
 -मेव वीधौ १०, ३१ ६: ३९
 १५, ४६ - ३८, छ १३, १.
 शिताची- -ची आपधौ १४, २९,
 १^१.
 श-नाति- -पा ४, ४, १४३, १४४^६,
 -ति अयम् १, अय १, ३३, ४,
 १३ x x, -तिम् अय १९, ४४
 शिवातीय, या- -य अय ३२,
 १, २७, ३३, १, ९, १, -यम्
 आर ४, ८, ३९, ४३, कौस् ९,
 ४^१, अया २३, ३^१, अय १९,
 १२, -यानम् शोधौ १६, १३,
 १^१, -येव आर २, ८, ११, १, ७,
 अर ८, १, ४, २३, २, ६.
 शिवातीय गण- -गस्य अयम्
 १.
 शिवातीय-मयोम्- -मुवा
 अय ६८, ३, २
 श-ति- पा ५, २, १३८
 शि-ति- (व>)वा- -वा कौस्
 २४, ३१, अय १२, १.
 शि-तु- पा ५, २, १३८
 शिन्दोवी- -व्या कौस् १४०, ५,

अय १९, १, ४.
 शिन्दोवी(व>)वा- -याणि
 शा. गी ४, ११, ६, २१, १९, ८,
 ९, ७
 शि-न्- -सं-म- पा ५, २, १३८.
 शि-मु- -पावा ३, २, १८०^१,
 -रिंशु- कौस् ११७, ४, या १०,
 ३५, -शु. या ५, ३^१ ६, १४,
 ११, -मो. याशि १, ३४.
 शिंशु-मयोमु- -मुग्याम्
 वेताधौ १०, १९, कौस् १८,
 २५, १९, १, ४३, १२, अय ३२,
 १, २२^१, -म् कौस् ९, १^१, ४,
 ४१, १४, अय^१ ३२, १, २६, २७
 शि-मु- -याय अय ३७, ७, १^१
 शिंशु- -मुवा आधौ ४, ९, ४, ८,
 ९, ५, कौस् ३, ३, १, -मुवी
 आधौ १, ९, १, शोधौ १, १४, ५,
 -म्, शोधौ ८, १९, १, आपधौ
 ५, १५, ५, वीधौ १, १७: ३६^१,
 १०, ५४ १८, १९^२, द्विधौ ३,
 ४, ३७.
 शशाम- ✓शम् द.
 शशाम- पाय ४, १, ४१.
 शशमी- पा ४, १, ४१
 शमी-धान- -मयम् द्विष्ट १,
 ८, १०, अय ४६, १, १०, ७०^१,
 १८, ३
 शम्भो(मी-लो)प- -या अयम्

a) वृ २३७१ ४, ६ द । b) = संयु-न्याय- । c) विप, नाप. (दिश- [पाय १]), व्यय (रु-) ।
 d) तु पापम । e) सया कौस् १, ३३, २१ सत्यशो इति पाठे । f) शकरीम् इति पाठान्तरम् । g) = कार्ति-
 केय- । शक्ये इम् प्र । h) विप (विष्ठा-) । i) वैप १ द । j) पाठे वैप १ शक्यी टि द । k) वैप २,
 २४ द । l) पाठे वैप १ शुक्लाय टि द । m) विप. (आञ्जल- [अय १९ ४४]), व्यय (शक्ति-) । n) भाप ।
 o) = मन्त्रपण्यविशेष । तस्मिन्मास्ये छ प्र । p) = शब्- (छ ष ७, ३५, १ प्रम्) । q) = सूक्त-द्वय (शौ १,
 ५-१) । r) <शुनो देवो (छ १०, १, ४) । s) = शब्- । t) विप, व्यय (विप) । u) तु पापम ।
 v) = शशाम १०, ८९, १ । तैमा २, ४, १, ८ तैमा ४, ४२, २ शम्भु इति पाठे । w) शम्भु इति पाठ ।
 x) = शशाम- । उप कर्त्तिक प्र । y) शम्भु इति पाठ । z) = शक्ति- । a^१) = शमीप्रमथ शाम्य-
 [माधिर-] । b^१) अय, उप. = १पाक- ।

१,२८,३, हिष १,५,३९
 शमठ- पाठ १,१००.
 शमथ-शमन-^१नी- प्रम् $\sqrt{\text{शम् द्र}}$
 शमल^२- पाठ १, ११२ -छम् कौट्
 ९७,८१, अण ३३,१,८, ३७,९,
 ३१, ४८, ६३१, -लेन कौट्
 ४२ १०१
 शमि^३ शैशि १२११
 शमिक- (>शामिक- वा) पाग
 ४,१,१०४
 शमित-^४, शमित्- प्रम् $\sqrt{\text{शम् द्र}}$
 शमिष्ट (<शम्)ल- पा ८,३,९६.
 शमी- शम- द्र
 शमी^५-^६ -मी अण ४८,६१, निष
 २, १, या ११, १६१, -म्या
 शाश्री ८,२०,१
 शमी वल्->शमिष्ट- छा
 शाश्री ८,२०,११
 शमी^७- वा, पाग ४,१,४९,३,८६,
 ५,२,२४६, ६,३, ८७, -फं०मि
 आश्रिष्ट ३,८,३ ३२, वीषि, -मी
 वीश्री २,७. १७, १२ ४, १८,
 ४५ २६, हिश्री, -मी अण
 ५ ५,६, -मीम् आपश्री ५ २,
 ७^३१, भाश्री ५, ५, १४,
 वाश्री, -म्या वीश्री १८,
 ४५ २५, २३, ७ १४,
 वैश्री १ ५ १, वैश्र ५ २ १७,
 -म्या कण १, ७, २, -म्याम्
 हिषि ९ १२
 शामील- पा ४,१,१४२, -लम्
 कौट् ८३, ४, ८५, १४, -लाद्
 गोष्ट १ ७,१५
 शामीली- लोम् काश्री

४,२,१
 शामीली-वैकङ्कयो-
 (तो-श्री)दुम्बरी- -मं काश्री
 १८,४,६
 शामील-वाण देहजङ्कु-
 -दृष्ट् वाश्री २१,३,३०
 शाम्य^८- -म्यम् अण ६,३०.
 शमी शर्म^९- भं आश्री २,१,१७१,
 आपश्री, वीश्री १८, ४५,
 ३०१, कण १, ७, १, ३,
 -फं०म् आपश्री ५,१,४, वीश्री
 २,६ ३४, वैश्री, -मंस्य आपश्री
 ५ १,२, वीश्री १८ ४५ २६,
 हिश्री, -मार्त् आश्री २, १,
 १६, आपश्री ५ ८,५१, १७,७,
 वीश्री, -मं माश्री १,५,९,९१
 -मो वीश्री २, १७ ५^१, अण
 २२,२,१^१
 शमीशर्मा^{१०}- -मीम् वीश्री २,६
 २८^१
 शमी शूर्प- -गांनि कौट् २८,९
 शमी वण्ड->पुण्डन्- -म्वी चम्बू
 ४ १८
 शमी-शूर्वा-वह- रुणाम् अण २१,
 २,३.
 शमी पत्र-सहज- -लेण अण १,
 ४४,७
 शमी-पञ्ज- -गानि माश्री १, ७, ४,
 ५, वाश्री १, ७, २, २०, वाट्,
 -गेषु आश्रिष्ट २, ५, २ ११,
 वीश्र ३,६,५, -मं माश्री १,७,
 ४,२ वाश्री १,७,२,१९, आश्रि
 शमीपणं वरीर- -राणि आपश्री
 ८,६,१३,२९,३१, भाश्री

शमीपणंकोर लक्वु- -वल्
 वीश्री ५, ५ ५, ६ ११x५,
 वैश्री ८, ११ ४, १२-३, ५,
 -वल्ताम् वीश्री २१ २: २६.
 शमीपणं मिश्र,आ- -आ अण
 ३०^१,१,१७, -आम् वाट् १४, ८^१
 शमी-पलाश-मधुका (क-अ)पामार्ग
 शिरीषो (प-उ)दुम्बर उल्लरुण
 वद्री- -नीणाम् वीश्र ४,४,२^१.
 शमी-पलाश-मधुके (क-इ)वीका-
 (क-अ)पामार्ग- -नीणाम् वाट्
 ४,१७,३^१
 शमी पलाश-मिथ- -आणि वाश्री
 ५ ५ १^१, -आम् कौट् १ ८,
 २१^१, कांष्ट १, १३, १५, पाण
 १,६, १, गोष्ट २, १, १४, जैश्र
 १,२० ११, द्राष्ट १,३,१८
 शमी पलाश-शाखा- -खाव्याम् पत्र
 ३,४,११
 शमी प्ररथ- पा ६,२,८७
 शमी-विम्ब->अम-शोषेण(शं)>
 णी- -ण्यौ कौट् ३१,८^१
 शमी-भूर्ल-म(व>)वी- स्व
 काश्री ७, काण्ट ४६ ५
 शमी मय- -यम् वाश्री ४, १६,
 ३, आश्रि ४, ६, ४, कौट्,
 -याणि आपश्री १५, ५, ११,
 वीश्री २१, २ १४, वैश्री,
 -धेन आश्रि १७,१
 शमीमयो- यो माश्री १, ५,
 ४,९९, वाश्री १,२,४,३, ४,४,
 ४, वैश्री, -धीनाम् वाश्र २७६
 ३,८^१, -धीम् आपश्री ५,१७,
 ५ १६,१,७, ९,९२x५, वीश्री,

a) वैप १ ४ । b) कर्म-नागन्- । c) = वृक्ष भेद । d) तु मपठ पात्रा पासि । शमी- इति
 भाषणा । e) राउस्यदेवतीर ण्य प्र वस (पात्रा ४,३,८५) । f) शामी^{१०} इति सस्कृते टि । g) सया शमीपणं
 मिश्रान् <> शमीपणं शमिध्रणि इति पागे । h) परस्पर पागे । i) पाला इति पाठ ? यदि शोच
 (हृ शां) । j) शोषेणकिल- इति शररुहे टि । k) प्वा^{१०} इति पाठ ? यदि शोच (तु पूर्व ल्यत्) ।

-य्य आपथी ५, १७, ४, ८, ५,
२९, माथी ५, १०, ९, ८, ५, ६,
वैथी, -य्यौ आपथ ४, ६, ४
शमी-र- पा ५, ३, ८८
शमी-राज- -य्य क्त्वा २५, २९
शमी-रु- > न पापलक्षण-
-ययो कौस्तु ३१, १
शमी-वत्- वा ४, २, ८६
शमी-कृत- हे अत्र २२, १, ५
शमी-शब्द- -डुकुमा आभिष्ट ३
४, ५ ३
शमी-शमक-वत्- -वत् वाए ४, २
शमी-शमक-श्यानाक- -कानाम्
वाए १४, ६
शमी-शम्याक- -केर कौस्तु ३१, १
शमी-शाज- -रया आपथी १६,
१४, १, वैथी १८, १२ ८, भाए,
-राम् आपथी १, १, ८, माथी
१, २, ८, माथी, -ले आपथी
१०, २८, ३, माथी १०, १९,
१५ हिथी ७, ३, १६, हिपि
शमीशाखा-सीवालोक- (४-अ)
शमद्- -शमन पाए ३, २, ७
शमी-मुमगो-मारा-> नालिन्-
-लिन् भाए ४, ६, ४
शम्या(मी आ)रोह- इस्व माथी १,
५ १, ९
शमी-गर्भ- प्रत् ३४र्मा- द
शमी-वत्- २शमी- द
शमी-वत्-> शमीवत्->

१२- पा ५, ३, ११८
शमुक्- -क्त्वा काए ७२ १
शमोप्यात् अत्र ४८, ११६
शंपद्- -दम् शम् ११६ ६
शम्प- पाथा सुरा पर सवन्धने
शश-य- शम्- द
शशश्व- -य्य अत्र ४८, १०४,
निच ४, २, वा ५ २४, ५, ५
शशम्- > शम्वा/रु पा ५, ४, ५८
शश्वर- -क्त्वा अत्र ४८, १०१,
निच १, १०, -रम् सु २९,
५, ५, अत्र १, ४०, १, ५, ४, ७, ५,
अत्र १०, १, शनिष्ट १, १२,
२ १, सा ७, २३, ५, १४,
१९, -रा अत्र ६८, १, ४७
शश्वर-हृत्- -ले शमी ८, १६,
१५
शम्- > शम्- > शम्- पुत्र- -प्र
निष्ट ९, १० ११
शम्बुक- पाठ ४, ४१
शश- शम्- द
शम्बल- > शम्बली- धाम ५७
शशं भु- शम्- द
शम्भु- -म्भु वीथी २३ १
शम्भु- -शम्भु- शम्- द
शम्भु- -शम्भु अत्र २, २८, १
शम्भ्या- -म्भ्या शमी १२, २४,
२५, शमी २, ४, १५, आपथी
७, १, १२, ४, ३, वीथी ४, २
५, २६, २०, ७ ४x४, माथी,

हिथी १५, ५८, -म्भ्या आपथी
१, १५, १३, माथी १, १६, ५,
माथी १, २, १, ७, वैथी ११,
८ १, वाए १५, १३, माए १,
१३, १७, काष्ठ २, ५, वीथी १
६, अत्र १, ६७, -म्भ्या काथी
१३, ३, २६, शमी ४, १६, ३,
आपथी ११, ७, ५, २३, २०,
३५, माथी २, २, ३, ३६, वाथी,
-म्भ्याभि आभिष्ट १, १, १
३४, भाए १, ३ ११, हिष्ट १,
२, १, -म्भ्याम् आपथी १२, ६,
७, शमी १३, २९, २, काथी,
वाथी ३, २, १, ४, आभिष्ट ३,
४, २ १२, ५, ७ १२, ६, ४ २,
७, -म्भ्या काथी १५ १, ८,
आपथी १८, ८, १२, १०, वीथी
१२ १ ९, १०, १०, हिथी १३,
३, १४, १०, अत्राय ५, ३, १०,
-म्भ्यायम् आपथी १, २१, ३,
माथी १, २३, ३, आभिष्ट ३, ६,
४ ४, वीथी १, १३ ४, हिपि
१० ८, आपथ ६, १४, वीथी
१ ७, हिष्ट २, ४३, -म्भे
काथी ७, १, २३
शम्भ्या-क्त्वा- -नेषु कौष्ट १, ९, ७, १२,
शम्भ्या हृणादि- -न्म् काथी
२, ३, ८
शम्भ्या-गर्भ- -नेषु शीष्ट १, १५, ६,
शम्भ्या इष्टुपत्- -ले शमी ८,

a) कया लुवा [विहा] यरेति क्त्वा वत् । b) इत् । c) = वृत् विहा- (तु शमुक- [काए]) ।
d) म्य । e) = शम्भु- । f) वाप (फल) । g) = शम्भु- (तु वैप १) । h) वैप १ द ।
i) = वैप- । j) = वृत्- । k) = १ वत् । l) = शम्भु विहा । m) तु वा, वैपु सात् शम्भु
इति । n) एत्र आपथी १, २०, ४ साधियेण इति पाथे । o) एषा शम्भु (वि २ ६, १ ७) <> शम्भ्या
प (वि १, ८ १, १ ७) इति पाथे । p) शम्भु शम्भ्या पत्वात् पत्वात् इत्यत्र शम्भु शम्भ्या १, १, १७ प्रत्
आ शम्भ्यापत्वात् इति, आपथी ३, १०, ९ शम्भु शम्भ्यापत्वात् इति, माथी ३, ४, १ प्रत् शम्भु शम्भ्यापत्वात्
इति पाथे । q) शम्भु इति पाठ । रति रोव (तु पाथे) । r) एत्र शम्भु <> शम्भु
इति पाथे ।

८,२९; गौपि २,७,२६.
 शक्या-न्यास- -से वीथी १२,१७ :
 ३; ४; ६-९; -सेड-से वीथी
 १६,२९ : १२; ३० : ६.
 शक्या-परास- -सा^१ हिथी १८,
 ४,५०^०; -सात् आथी ३, १०,
 ९^०; आपथी ९,१,१०^०; माथी
 २,३,१०^०; हिथी १५,१,१०^०;
 १९; श्राथी ५, २, २३^०; लाथी
 २,६,१६^०; -सेड-से श्राथी १३,
 २६,२९^०.
 शक्यापरासिन्- -सी आपथी
 २३,१३,१३^०.
 शक्या-परिधि- -धिषु वीथी २३,
 ७ : १४; -धीन् वीथी १४,१७ :
 २^०; २३,७ : १४; -धी वीथी
 १४,१७ : ३,७; ११; १७,२५;
 १८ : ४; ९; १३^०; २५.
 शक्या(न्या-अ)वास^०- -स; -सानाम्
 वाधुथी ३,९२ : १; -से वाधुथी
 ३,९२ : ८.
 शक्या-अमाण- -णम् काष्ठ २, १०.
 शक्या-अव्याध^०- -धेषु वीथी ११,
 ७ : ३७; १२, १२ : १३; १७ :
 १.
 शक्या-वास- -स; हिथी १०, १,
 २५; -सात् माथी ३, ४, १^०;
 वैथी २०, २ : ७^०; आपथ १,
 ९, ६^०; २२^०; हिष १, ३, ६^०;
 २३^०; -से वीथी १९,९ : १६;
 -सेड-से आथी १२, ६, ३^०;
 काथी १५, ९, ८, २४, ६, ५^०.

शक्या-वासन- -नम् लाथी १०,
 १९,५.
 शक्या-मात्र- -त्रः वीथु ४ : १०;
 वृदे ५,१५२.
 शक्यामाथी- -त्री आपथी ७,
 ३,१३; वीथु ३ : २५; -त्रीम्
 काथी ५, ३, २९; माथी ७,३,
 ७; १२,५,३; वाथी १,६,१,१८.
 शक्या(न्या-अ)वास^०- -सेन्यः
 वाधुथी ३,९२ : ६.
 शक्या-न्या- -न्या अथ १९,४९^०.
 शक्याक^०->शक्या(क<>)की-
 -कीः कौस् ८२,१२; १९.
 शक्यु- प्रष्ट. शम्- द.
 शक्या-कर्त्त- -प्रष्ट. शक्या- द.
 शक्यारोह- -शानी- द.
 शक्योदुम्बर- -राः वैथी ११,११ : ३.
 शक्योस् शम्- द.
 शय- ✓शी द.
 शयण- (>ण्ड-भक्त- पा.) पाठभो
 २,२,११७; पाग ४,२,५४.
 शयणदायन- (>ण्ड-भक्त- पा.)
 पाग ४,२,५४.
 शयय- -न, -नीय- ✓शी द.
 शयाह- (>ण्ड-भक्त- पा.) पाग
 ४,२,५४.
 शयापिड- (>ण्ड-भक्त- पा.)
 पाग ४,२,५४.
 शयाहटी- पा, पाग ४,२,८२.
 शयान- प्रष्ट. ✓शी द.
 शयुन- पाठ ३,६१.
 शशर(ब्रा.)^१- -नम् आथी ८,१०,

७; माथी ८, १२, १; वैथी ९,
 २ : ५; ३ : ७; हिथी ५, ३;
 २०.
 शर-निष्कास- -नम् वैथी ९, ३ :
 ४; -सस्य आपथी ८,११, १९;
 माथी ८,१३,४; हिथी ५,३,२६.
 शशर^२- (>शरक- पा.) पाग ४,२,
 ८०.
 शशर- प्रष्ट. ✓श (हिंसायाम्) द.
 शशरु- पाठना ४,८७.
 शरण,णा^१- पाग ५,३,१०३^०; -ण्यः
 हिष १,२७,८१^०; -नम् आथी
 ७,३,१९^०; ण्वाथी १,४,५,६;
 १३, ३; १५, १७, १; आपथी;
 वैथी १७ : १२; सुष्ठ, ४; १२,
 ६; ३०, २; काष्ट ११, १; अथ
 ४८,८९^०; निष ३,४^०; या ५,
 २२; -ण्ण्य वाथी १, १,६, ६;
 आसिण्ड २,४,१ : २०; माष्ट २,
 ३ : १३; या ५, २३; -ण्ण्यः
 आसिण्ड ३,८,२ : ३६; वीपि १,
 १५ : ४४; -णानि आप २, ८,
 १३; -णाम् निम् ४, ३ : ४;
 -ण्य या २,७; -णे काष्ट ५४,
 १०; माष्ट २, ५ : १; काष्ट १७,
 ११; विष ६७, १४; या ५,७^०;
 पाठा ४,३,१२०.
 शरणा(ण-आ)गत,ता- -गः अथ
 ४७,२, २; -वस्य विष ३६,१;
 -वायाः विष ३६,७.
 शरणगत-धातिन्- -त्री संघ
 ३९०; ४१४.

a) ला १। b) सप्र. शरणा<>शरणासे<>शरणी<>शरणासे इति पठि.। c) पठि.
 पृ २३७४ P ६.। d) [शक्यापरासविक्र] देश- (द्र. पन्नी)। e) नाप.। उम. उप. वधाक्यं
 <शया, मवा (५, व/क)स शिषणे]। f) = प्रदेश.। उम. उप. कथिकरणे प्र.। g) शक्या (द्र. वैप १)।
 h) नाप. (शुभ-).। i) पृ २३६४ P ६.। j) = पश्चिमोपरि गामृतवस्तु-। k) शिरा- इति
 पाठा.। l) विप., नाप.। वैप १ द.। m) शरण- इत्यपि पाठि. भाष्ये.। n) शक्या इति पाठः ?
 यनि. शोधः (द्र. सपा. शी ३, १२,५ माष्ट २, ३ : १३ Kiste, Old. न)

शरणगत हन्तु- हन्तु विप
 ५४,३२
 शरण्य- पा ५, ३, १०३, -पय
 शेष २४४, -पयस्य. वीथु छ,
 ४, ६; वाथु छ, १७, ५१
 शरणि- ✓द्य (दिवायाम्) द
 शरण्य- पाठ ३, १०१.
 शरद्- पाठ १, १३०, पाग छ, २,
 ६३^०, ५, ४, १०७, -रद आश्री
 ५, ३, १८, ८, ४, १३१^० x x, माथी,
 -पैरसु वीथु ६२, ९, अम १२,
 ३, -रद शोथी १४, ६२, ३,
 १७, १२, ११, आपथी, या छ,
 २५१^०, -पैरसु वीथु ३, १८
 ९, माथी १, ४, १, २७, माथु
 २, ३, ५, या १३, ५३, -रदा
 आथी छ, १२, २१, -रदाम् वीथु
 छ०, १३१, -रदि शोथी २, १,
 ४, १५, १, १, १६, ९, १०, वाथी
 १४, १, १, आपथी, -पैरदे
 आपथी २०, १४, ५, वीथु छ, ३,
 ३, शथि छ, १६, २०, पाथ,
 -पैरसु आपथी ५, ११, ५
 वीथी २, १६ ३९, हिथी ६,
 ५ ११, आपम २, ७, २६
 शरण^० - इम् अप ९, १, ४,
 ५३, ३, ३, -दा आपथी २०,
 २३, ११, वीथी १५, ३८ १२१,
 -शरण्य शथी ९, २७, ११,
 -दी आथी छ, १२, १, अम
 १५ ४^१
 शरणी- वी वाधि २,

३८१
 शरदे(१३)नु-गिमा (ग-
 का)न(ग>)ग-गाम् विप १,
 २२.
 शरदक- पा छ, ३, २७.
 शरदिथ- पा छ, २, ६३^०, ३,
 १२, -वादि, -थै वीथु २, १०,
 ५
 शरद-प्रतिवधि- -सो आश्री १९,
 १६, १४, हिथी २२, १, ११.
 शरद-आपवा(१-आ)थि- -सै कप
 २, २, ९
 शरद-आदि- -दी वीथु २, १०, ५
 शरदि-ज- पा ६, ३, १५.
 शरद-मीम- -मयो. विप ९, २६,
 ५२ ६.
 शरद-वसन्त- -मयो कप ३, ७, ५
 शरद-विपुषव- -मथ माधि २,
 ८, २.

शरदिन्- (>शरण-)
 शरद्वत्- पाग छ, १, १०४.
 शरद्वत- पा छ, १, १०४, --त
 वीथीय ११ ४, -या वीथीय
 ११ १, ३
 शरद्वतयन- पा छ, १, १०२,
 -या वीथीय ३ १४.
 शरद्वत्-वत् वीथीय ११ ४
 शरद्वन्त^०- भगनाम् वैष छ, ४, २
 शरद्वन्त- --न्त वैष छ, ४, २
 शरद्वन्त वत् वैष छ, ४, २
 शरम,भा^०- पाठ ३, १२२, पागवा
 ८, ३, १८^०, -म शोथी १६, ३,

१४, १२, १३, वाथुथी छ, १९ :
 २६, ३० : ९, -मथ वीथी
 १०, ३४ १८१, -मथ^० आपथ
 ३, १२, -माथ^० शानिथु २, ३,
 ५ : २०१.
 शरमी- -मी वाथु वी छ, ३० : ९.
 शरमभ्यापः पाथ १९, २१.
 शरलोमन्^० - (>शरणेमि- वा.)
 पाग छ, १, ९६.
 शरल्य- ✓थ (दिवायाम्) द.
 शरशरा^० - >✓शरराय>
 शरशरायत्- -मथ आथी ३,
 ११, १९^०.
 शरसरा (रा✓म)थ (मुनि), शर-
 शरसराय् अयाथ छ, ३१^०.
 शरस्^०-र वाथी छ, ८, ८१, आपथी
 ६, ९, ११, वाथुथी ३, ३७
 ४, -पैरसु^० वाथी २६, ६, ११;
 आपथी १५, ११, ६, वीथी
 ९, ११-६, माथी ११, ११,
 ६, वैथी १३, १३ : ८, हिथी
 २४, ५, १, वीथि ३, ९, ३.
 शरो(रत्-म)शर^०- -रे वैथु १,
 १४ : ९.
 शरो निष्वाप^०- -मथ वाथी १, ७, ३,
 ८
 शरोनिष्वापन्(र्ग>)र्ग-
 -र्गाम् वाथी १, ७, ३, २१
 शरारय- ✓थ (दिवायाम्) द
 शरारय^०- पाठमो २, ३, १३६, या ६,
 २, २९, पाग २, ४, ११, थि १७,
 -व वैथी ११, ९, १६, -मथ

a) वैष १ द । b) = [शरत् पदपरित-] प्रथ-विशेष । c) स्या सै छ, १, १५, १ वाठ छ १, ६
 शरद्व्य इति धामे । d) विप (सुत, सत्य-प्रवृ) । e) = प्रत्यावेत्- । f) १ १९-९ h द ।
 g) व्यप । h) छ पागम । i) = दर्शनीया- [कम्पा-] । j) शब्दलुहति- । k) स्या शरशरायत् <>
 शरशरायत् <> शिरशिरायत् <> शिरिशिरामवति <> शिरिशिरामवति इति धामे । l) = स्या.
 मा ३८, १९ प्रवृ लेजा छ, १०, ३ । मै छ, १, १ शरसि इति धामे । m) विप. (प्रमि) । मथो वस । n) = शर-
 -आप । o) = [पथिथ] शृणान ।

बीधो ३, १४. ७, २७, ७ १३,
 २९, ९ : ११, १० : १९, वैधो,
 -ययोः काधो ५, ६, १०, -वान्
 वैधो १७, १२ : ६, -वे वौधो
 २, १३ ११, ५, १६ : ३१, वैधो
 १, ४, १८, ७ ५x, आद्य, -वेण
 वौधो २९, १० १८, आद्य १४,
 १४, भाद्य १, २२ ६x, द्विह
 शराव दक्षि(णा >)ण- -णम् वौधो
 २४, २९ : २.
 शराव-परिमाण(स-क)धं- -थम्
 वौधो २९, १० : १९.
 शरावो(व ओ)दन- -न्म अप २२,
 ९, ४.

शरावित्- (>शरावि-)

शरि- पाठ ४, १२८.

शरिमन्- पाठ ४, १४८.

शरी- √श्र(हिंसायाम्) द.

शरीर- पाठ ४, ३०, पाय २, ४, ३१,
 -रम् आधो ३, ३, ११, शोधो
 ५, १७, ३१, १०, १७, ४, काधो,
 वैताधो २४, १०, या १४,
 ३०, सुधा १, १३, -रस्य
 आधो ९, ११, ५, वैधो
 २०, २१ १, वैद्य ७, १
 ३, वाध, -रा मय २०,
 -राण्य कौद्य ५, ६, ५,
 आसिद्य ३, ६, २ : १६, ७, ३.
 ११, वौद्य १, १० ५, २, १, ६,
 अयाद्य ३, ८, -राणि शोधो ४,
 १५, ८, ९, २३, १३; काधो,
 -नराव आधो २, १, १०, निद्य
 १, ७ ३५, कौद्य ३, ५, २, शोध,
 -रे अद्य ४, २, ७, ५०, ३, १, ५,
 ४, ५, ६, विद्य, -रेण आसिद्य

३ ५, ६ : ५१, वौद्य १, ४ :
 २११, वौद्य १, ३, १३, क्य १,
 १०, ११, या १, २, -रेद्य शोधो
 ४, १५, ९, अय ७१, १८, १, या
 २, १०, -रै काधो ६, १,
 ३३, आधो, वैद्य ५, ४ : ८,
 अयाद्य ३, १०, विद्य ४३, ४४, ४,
 शरीर- -र शंथ ३१६, ३१८,
 ३१९, ३२१, वौद्य २, २, ५४,
 विद्य ५, २; वौद्य १२, ४३,
 -रस्य विद्य २२, ९३, -रा वैद्य
 १, १४, -रेद्य वैद्य २, १ : १,
 -रे वैद्य १, १ : १३, वाध ११,
 २०, विद्य २३, १

शरीर-मानसा(स-आ)णन्तु-
 क-व्याधि- -धिभिः विद्य ९६,
 २८.

शरीर-कात्स्न्यं- -रन्तम् द्विधो ३,
 १, ९.

शरीर-दायाद- -दाः आसिद्य ३,
 ६, २ : २२, ९, ३ : २२, वौद्य
 १, १० : १७, २, ७, ११.

शरीर-धीति^१- -ति या ७, २३

शरीर-धारिन्- -रिभिः विद्य १, ४३

शरीर-धृ- -धृक् वौद्य ४, ८, ९

शरीर-नास- -ये काधो २५, ८, १४,
 वैद्य २, ४. १.

शरीर निपात- -वाद्य वौद्य २३, ११.

शरीर-निर्मल- -ल- अय ६९, ८, ५

शरीर-न्यास- -स अय २, २१,
 ६, द्विद्य २, १३, ११४.

शरीर परिचाय- -येन वाध २०,
 ४७.

शरीर-पाठ- -जाद्य अय ३८५

शरीरपात-भीत- -ना वृदे ६,
 ८९.

शरीर-भेद- -दः वौद्य १२, ४.

शरीर-रक्षण(ण-अ)वधि- -वौ
 वौद्य २, ८, ७.

शरीर-रेषण- -णे आद्य २३, ९.

शरीर लेप- -येन अय ४०, ६, १

शरीर-वन्- -वत् वौधो १७, २८ :
 ३, जैधो ४ ५

शरीर-विमोक्षण- -जात् वौधो २९,
 ५ : २६, वाध ७, ४. वौद्य २,
 १०, ६७.

शरीर-शुद्धि- -दि शंथ १००

शरीर-संस्कार- -रम् वौद्य २, ८, १,
 ३, ७, १, -रात् आसिद्य ३, ११,
 ४ : ४३

शरीर-सप्तर्षिन्- -र्षी वौधो २४,
 १९ : ५.

शरीर-शोभ- -भात् आधो २०,
 १२, ५, २१, ९.

शरीरा(र-आ)कृति- -तिम् द्विद्य ९ :
 ११.

शरीरा(र-आ)शेष- -य वैद्य ३, १० :
 १.

शरीरा(र-अ)दर्शन- -ने अयाद्य ३,
 ६, ८.

शरीरा(र-अ)घषव- -यात् वा ४, ३,
 ५५, ५, १, ६, वाका ४, २, १०४

शरीरि(न् >)नी- -नो वृदे ५, ९८.

शरीरो(र-उ)परमा(ग-अ)न्त- -न्तो
 शय ८९.

शरीरो(र-उ)परामन्^१- -नः वा ७,
 २३.

शर- √श्र(हिंसायाम्) द.
 शिरलिप्तायाम् अय ४८, २८.

a) वस, उप = २दक्षिणा-। b) वृ ११५२ C द.। c) वैद्य १ द.। d) पागे वैद्य १ शरीरम्
 पे २, ३९, ५ टि. द.। e) वृ २२३६। द.। f) पागे, वैद्य १ सधरथम् ना ११, २० टि. द.। g) उत्पेद-
 भीद्य प्र.। h) पत.। i) वृ, = कण्ठादि-। j) उप, कर्तार प्र.।

शर्करा- पाठ ४, १, पा ४, २, ८३, ५, २, १०५^५, पाग ४, २, ८०^{१०}, ५ ३, १०५, -रवा^५ शर्क २२०, २२१, -रा काथी ४, ८, १४, १६, ८, १९, २१, ४, ११, आषधी; वाशु ७, ३६, वीणु ६ १८, -राणां कौसु ४७, ४६, -राज् कौसु ७२ १५ अण ४, ४, १०, ६, १, ११, २, ५, -रागि. आषधी ५, १, ११, १६, ४, १, १४, ४, २०, १, १९, ११, ६, १ वीथी; -राज् काथी १७, ४, १५, मागी ६, १, ७, ७, २, १, १०, ३, ११, १७, शाश्री, -रायाम् आषधी १६, १०, १८, वैश्री १९, ८ १३ दिधी ११, ३, ३८, -राशु वैश्री १३, मागी २, १, ११, लाश्री १, ५, ८, कौसु ३७, ३, -रे काथी १७, १२, २४ शर्कर- पा ४, २, ८३, ५, २, १०४, १०५ ३, १०७, -रे वैश्री १३ शर्करक- पा ४, २, ८० शर्करिच- पा ४, २, ८०, ८४ शर्करक- पा ४ २, ८० शर्कर कर्म- पा ४ २, ८० शर्कर कर्मिन्- विग अण ६४, २, ४, ३ १० शर्करा-कर्मण- ण अण ६२ २ २ शर्करा-कर्मिन्- विगि शाए ६, १, १३ शर्करा(राज)अ- पाग ४ १, १०५ २, १११

शर्कराक्षय- पा ४, १, १०५ शर्कराक्ष- पा ४, २, १११, -शा वीथी ३ २ शर्करा-क्षेप- -प वा ६, १, १६ शर्करा(रा आ)दि- -दि कौसु ८६, २८ शर्करा-भद्रं- (>) शर्करामदं- निरु- पा) राग ४, ४, १९, शर्करा निरु- -आगि अशा १५, ५, -आज् कौसु १८, १३ शर्करा(रा अ)भोरासा(रा-अ)इमचूर्ण- -गी काथी १६, ३, १८, शर्करा-व्यय- -गम् अण ९, ३, २ शर्करा-वय- पा ५ २, १०५ शर्करा(रा-अ)वाञ्जन पिष्टा(ह-आ) दि- -दीनि वैश्री १३ ३ १ शर्करा(रा आ)हुति- विम् अशा १५ ५ शर्करि- पा ४, २, ८० शर्करिल- पा ५, २, १०५ शर्करीय- पा ४, २, ८४ शर्करी(रा-अ)मज्जन-> श्वीय- पागम ११६ शर्करि- (>) शी- पा) पाग ४, १, ४१ शर्कोट- -उस्य कौसु १३२, ८^५ शर्क- प्रम् √शुध् द शर्पणा- (>) णा वल्-) √शर्क्य पापा भ्वा पर गतो शर्मन्- पाठ ४, १४५, पाग ४, २, ७५, -शर्म लाश्री १, १२, ३६, २, १०, २१, ११, १२^१, ३, ७, १२ ४ १२, २, ८, ३, २७, शाश्री

३, ६, २^१ xx, वाश्री, आषमं २, ०, ९^६, आगिष्ट १, १, २ ३६^६, वीणु २, ५, १३^६, भाणु १, ६ ७^६, अण ४८, ८९^१, विप ३, ४^१, गा ९, १९, १२^६, १२, ४५, -संम^१ आगिष्ट २, ५, ४^१ १०, ११^१, १२, -शर्मणा आषधी ४, ७, २^१, शाश्री ४, १०, १-२, ११, १, २, हिथी ६, २, १७, वीणु ३, १०, आगिष्ट १, १, १ १९, -संमि वा ११, १२^१, -संमे वैणु ५, ५ १५, -संम् मात्रा १४, ५५, -संमि अत्राय २, ५^१ शर्मण- पा ४, २, ७५ शर्मण्य- -०ण्वा आषधी १९, २६, ७, वीथी १३, ३९ २, मागी ५, २, ६, १०, १७, दिधी २२, ६, १०, आगिष्ट १, २, १ २३ शर्म-वरुय- -ये हिष्ट १, ४, ४^६ शर्म-शर्मन्- -सं अण ३३, ६, १, ७, ४, -संमि अण ४६ २, १, -सर्मा अण ५, ३, ५, ३२, १, १४^१, अशा २४, १ शर्मवर्मे रवस्ययन- -नो अण ३३, १, ९ शर्मा(र्म)न्वा- -न्तम् विथीका ८७^१, वैणु १, ७ ८, २, ६ ८, ३, २ ६ शर्मिक- (>) शर्मिय- पा) पाग ५, १, १२८ शर्मिय-पा- -शा अण ४८, ८२, निग २, ५, ४, २, पा ५, ४७^१ ६

a) वैप १ द । b) = [शर्करा श्व] देण- । c) अर्थ २ । d) = अण्वधिकृति- (आद्य इति नभा) । e) लघु कर्मि प्र । f) = शर्मन् कर्मण । g) इ पापम । h) पागे वैप १ अष्टौत्स्य शो ७, ५८, ५ टि द । i) दृ २२०९ । j) पागे कै १, २५२१ ० द । k) पागे दृ २२९४ । l) इ द नाम् । m) [विप्रस्य] मज्जस्य नाम्- । n) पागे दृ २२७१ ० द । o) = मज्जस्य-विशेष । मज्जो वध (उमेसहित कर्म यस्मिन्) । p) वय ।

-वामि आपथी १२, १४, १५,
 हिथी ८, ४, १७, वा ५, ४,
 -वाम् या १०, २१६
 शर्म हन्- हा शायी ४, ८, ८
 शर्मण- > शर्मण वत्- शर्मण क्रम
 २, ९, ११३, वृद ३, २३
 शर्मण- (> शर्मणा वत्- पा)
 पाग ४, २, ८६
 शर्मण- > शर्मण- त श्रम २,
 १०, १२, वृदे ३, ५५, -ते वृदे
 २, १२९, तैत्रा ४, ४१, ११, १६
 शर्मण क- कस्य शर्मण १६
 १९
 शर्मण पाषा भ्वा पर हिंसायाम्
 शर्मण- पाठ १, १५५ -शर्मण आपम
 २, १८, १०, आश्रित २, ५, ८
 १२, वीष्ट २, ७, १६, माष्ट २,
 ८ ६, हिष्ट २, ८, २, श्रप ४०,
 ३, ३, -वं कौष्ट १२८, ४१,
 श्रप ३१, २, ४, ४०, ४, ४, साम
 १, ५१५, श्रप १२, ५(४), १५,
 ५, -शर्मण आश्रित २, ६, ३
 १४, वीष्ट ३, ३, २४, अष्ट १,
 २७, ४, ४०, ३, ३९, शर्मा,
 शीष्ट २, ५, २०, -शर्मण आपम
 २, १८, २३, आश्रित, -शर्मण
 शायी ४, १८, ५, १९, १, आपम,
 माष्ट ५२, ६९, -वैश्व अप ४०,
 ३, ३१
 शर्मण- पा ४, १, ४९, -शर्मण
 शायी ४, १९, ५ पाठ ३, ८, १०
 शर्मण- न्यस्य शर्मण १७ १६
 शर्मण (>) शी- पाठमो २, ७३,

-श्री श्रप ४८, ७४, निष् १, ७,
 -श्रीपु निष् ८, १ १६, -श्री.
 श्रप ६८, २, ५९
 शर्मणीक- श (हिंसायाम्) द्व
 शर्मणीक- क निष् १, ५ २५
 शर्मण पाषा भ्वा आत्म चलन
 चरणयो, पर गती
 शर्मण- शर्मण- पा ३, १, १४०
 शर्मण शायी १२, २३, २१.
 शर्मण- पाग ४, २, ८०, -शर्मण
 शायी ३, ३, ९, शायी ५, १७, ५,
 ६, ९, ६, शायी ५, २, ९, ४.
 शर्मण- पा ४, २, ८०
 शर्मण परिचाय- न्यस्य शायी ४,
 १, २२, २, २३
 शर्मण कु- > शर्मण- पाग ४, १,
 ९६, ९९
 शर्मण- पा ४, १, ९९, पाग ४,
 २, ५३, -न शायी १२, १४,
 ६, -मा शायी ३१ २.
 शर्मण- पा ४, २, ५३
 शर्मण शालाक-लोहितान्-
 लोहितान्- शर्मण शायी १२,
 १४, ६
 शर्मण- निन दाथी
 ८, ४, २४, शायी ४, ८, २०
 शर्मण- पा ४, १, ९६, पाग २, ४, ५९
 शर्मण- पाठ ३, ११३, पाग ८, ३,
 १८, -शे शायी २, ५ १३
 शर्मण- के श्रप ६९, ४, ९
 शर्मण- पाठमो २, ३, ९६, पाग २,
 ४, ३१
 शर्मण- ली कर्म ३, ६, ८, -श्रीम

वीथी ५, १ ३, ५: २x, x,
 कौष्ट १, ८, ६, शाय १, १२,
 ६, -श्या शायी ५, २, १५,
 शायी ८, ४, १, वीथी ५,
 ४ २४, ९ २५x, शायी
 शर्मण पिशाङ्ग- शर्मण शायी
 १६, २८, ४, -शर्मण शायी १०,
 ३, २७, -शर्मण शायी २२, २३,
 १३, हिथी १७, ८, २९
 शर्मण (ली का) दि-शर्मण पर्य
 म्- शर्मण आश्रित २, ३, ५
 १४
 शर्मण, का- पाठ ४, १४, पाग ४,
 २, ८६, -का वीथी १८, ८
 ६, शायी १, २, ३, २६, माष्ट १,
 ११, ९, -कान् वीथी १६, १३
 १, ४, -कामि. शायी १२,
 १८, ९, १३, ११, २, १४, ५, वीथी
 १५, २० १०, १६, १७: ३,
 हिथी, -काम्याम् वीथी १८, ९
 २, ९, १६, २३, -काम् वीथी ५,
 १४ २४, शायी १, ७, ६ २०
 शर्मण- कम् वीथी ९, १३
 १६, -कान् काथी १०, ६, १४,
 २६, ७, ३, वीथी ८, ११ ११,
 १६, १७, ९, १३ १, जैथी
 १९ २, -केपु शायी ५, १९,
 ५, -के जैथी २० ४
 शर्मण परि- पा २ १, १०
 शर्मण- (> शर्मणा श्रम-
 पा) पाग ४, १, १२३
 शर्मण- मुष्टि- शीम् शायी १५,
 १३, ३, काठगी १५, ३, शायी

a) वैष १३ । b) शर्मण- इति श्रप, शर्मण- इति पाका । c) शर्मण प्र । d) शोच वैष ३
 शर्मण नै २, १, १० इति द् । e) = शर्मण श्रम । f) शर्मण वैष १३ । g) शर्मण ३ । h) श्रम ।
 i) श्रम पागम । j) शर्मण प्र (पा ४, ३, १०-५) । k) = शर्मण श्रम श्रम । l) शर्मण शर्मण <>
 शर्मण इति पागे । m) = शर्मण-मुष्टि । शर्मण शर्मण प्र । n) शर्मण । वष । o) शर्मण इति पाठ ?
 शर्मण. शोच (तु शर्मण, शायी) ।

११, १३, ५, वीथी १३, १५: १५.
 शलाका-नाद- वा ४, २, ८६.
 शलाका-स्वाम्य- न्यम् द्विथी ५, ५, ३६.
 शलाका-स्थ- स्वम् आपथी ८, १४, १५, माथी ८, १६, ११, माथी १, ७, ६, २०; बाथी १, ७, ४, ११.
 शलाकी(का-उ)द्गाद- वान् माथी २, ५, ३, १.
 शलाका- पाग ४, १, १२३; १५१^b.
 शलाकेय- वा ४, १, १२३.
 शलाक्य- वा ४, १, १५१.
 शलाकु- पाठभो २, १, ५०, -उ कप ३, ६, ७.
 शलाकु-मन्- न्यन् गोप २, ७, ४^c.
 शलाकु-मन्- न्यम् वैप ३, १२: ३^d, -स्तेन भाप १, १४, ४^e.
 शा.सं.शलाकुर- > शा.सं.शला- कुरीय- वा ४, ३, १५४.
 शलाकल- पाग २, ५, ६९^f; ४, १, १२३^g.
 शलाकलेय- वा ४, १, १२३.
 शलाकल- पाठभो २, १, १०५.
 शलाकल- वा ४, ४, ५४.
 शलाकल- न्यम् माप १,

११: ५; द्विप २, १, ३.
 शलाकु-मन्- न्यम् भाप १, १४, ३; १६, ६.
 शलाकु-मन्- न्यम् मापिप २, १, २: १^h.
 शलि- पाठ ४, १२८.
 शस्तक- पाठ ३, ४३; -रुम् माथी १, ८, १, ८, २, १०; -स्के: मापथी ५, ८, ४ⁱ, १, वीथी २, १५, १८^j, १, माथी ५, ४, ३^k, १, माथी, -वरी काठथी ५२.
 शस्तक-समर- -रे माथी १, ८, १, ५.
 शस्ते(क-र)द- -र द्विथी १५, ३, ११^l.
 शस्तम् पाथा. भ्वा. आत्म. क्यने.
 शस्तमलि- -लि वीथी १५, २८: १७, -लिम् आपमे १, ६, ४, वाप २६, ४, माप १, १३, ६, वाप १५, २; वा २२, ८४; -ली गु ३१, १.
 शस्तमल- -लम् वरां २१, ४.
 शस्तमलि-नार- -नं वीथी १५, ३०: ११; २६, ११: १३.
 शस्तमलि-द्वेम्- -मया वीथी २६, ११: १५.
 शस्त्य- पाठ ४, १०७, वा २, ४, ३१^m, -स्व या १२, ३०.
 शस्त्य-क- -क वाप ६८, ५, ८, विप

४४, ३४ⁿ; श्रे ६, १०६; -के वीथी २, ५: ३१.
 शस्त्य-क- -न्यम् भाप १, १९, १४; द्विप १, ५, ११६.
 शस्त्य-विधितित्- -स्ती वप ३, १२, १०.
 शस्त्य-धर्म- -नम् वीथी ३३, १^o.
 शस्त्य-धर्म- -स्ते: वाप १४, ११^p.
 शस्त्यक- (> शस्त्यनामि- वा.) पाग ४, १, १५४^q.
 शस्त्य- (> शस्त्यगिरि- वा.) पाठभो २, ३, १२९, पाग ६, ३, ११६^r.
 शस्त्य- पाथा. भा. पर. वती, शक्ति विप २, १४४^s.
 शय- -व वाप १८, १०; वा २, २, -वम् आपथी १५, २१, ५, माथी ११, २१, २०x, वापुथी, -वप्य वैप ५, २: १३, ७, ४: १६; १८; -वे वैप ७, ३: १; ४, ७; वैप २, १२, ३; -वेन वापुथी ३, ४४: १४, १५.
 शय- -न्यम् पाप ३, १०, २९, वाप ४, १६; गोप १४, १, -वा: वाप २६, ८^t, -वेन वाप २, ७, ५, ४.
 शय-कर्म- -नं वाप २३, ७, -मंया वीथ २, १, २४.
 शय-धर्म- -स्वाम् काथी १४,

a) म्वा । b) शलाका- इति पाणि । c) = शयक क- । d) उप = सापक- । e) तप- 'दुप्रमन्' <> 'दुप्रमन्' <> 'दुप्रमन्' <> 'दुप्रमन्' <> 'दुप्रमन्' <> पाप १, १५, ४ शलाकुमन्नेन इति पाणि । f) पाणि. पाठ । g) = पाणिश्यामिजन-स्वान- । h) वस इति पागम. । i) शलाकल- इति पाका. । j) शलाकल- इति पाका । k) वैप १ द. । l) उप = संधि- । m) पाणे वृ २३५१ क. द. । n) = इत् विशेष- । o) पाणे. वैप १ पहलुम् शी १४, १, ६१ टि. द. । p) स्वार्थे प्र । q) पस उप सैवि < सम्- (= निर्वसि-). । r) ट. पागम. । s) = शान-विष्- । t) शल्ल इति जीक । u) = शल्प-निकिताक- । v) उप. < ✓ रूप [छेदे] । w) परस्पर पाणे । x) वा २, २, ३, १८, ४, १३ पराण्ड द. । y) विप (बाधोच, प्रति) । स्वार्थे तसेदमर्थे च प्र. । -उ) उप शर्त् १ । नःसवाननियन्दि-उलसन्त- इति भाष्यम्, जल-कुण्ड- इति Old [EDMG ६२, ४५१] EdH १) पाठ १३, ८, १ १) च ।

२२, १९
 शब्द-नभ्य- श्चे शोभो १४, २२,
 १८, काशो २२, ३, १२, आपशो
 २२, ४, १६, हिशो १७, २, १२^{२३},
 लाशो ८, ५, ६
 शब्द मर्तु- -तारि. वीणि ३, १, ६,
 -तुं वैपु ७, ५ १२
 शब्द रूप- -पाणाम् शारु ६, १, ४,
 -पाणि शारु २, १२, १०
 शब्द ध्व वाष ४, ३७
 शब्द शिर-ध्वज^३- ज आपध १,
 २४, ११^०
 शब्द-शिरस्- न शोष २, १, २
 शशवशितो ध्वज^३-> ध्वनिन्-
 -जो विष ५०, १५
 शशवशितो-ध्वज^३ -ज हिष
 १, ६, ६०^०
 शब्द शूद्र-सूतका(क-अ)ज- -शानि
 पायु २, ८, ४
 शब्द शृणु- शृणु कथ ३, ३ १^१,
 -शृणुश्च विष २२, ६९
 शबा(व अ)त्रि- शब्द माश्रीम ३२
 १५, काशुड ३२ २, -त्रिना
 आपशो २, ३, २२, भाश्री २ ५,
 १८, हिशो १५, १७०
 शबा(व अ)नस्- नस शोशो १८,
 ३६ २, २३ १८ २०, २१
 शबा(व अ)नुगमन- जे वाष २३,
 २६
 शबा(व अ)मिमुल- -र वैपु ५, २
 २५
 शबो(व उ)क- -कम् गौष १४,
 २८

शश्वर- पाठ ३, १३१
 शशवस्(वसा)^४- न्य शोशो १८, ३,
 २, आपशो १२, १९, ५, अप
 ४८, ७५^४, ८८^१, १०३^१, निष
 १, १२^३, २, ९^३, अत्रा ७, ५६,
 -वस. या १२, २१^३, शत्रा ४,
 ५९ -वस आपशो ६, २, ६,
 २९, १२, शशो ९, ६, ६, शोशो
 १३ ७ ४, आपमं २, ११, ७,
 -वसा आपशो २, १२, ५, ८, ९, २,
 शोशो १५, ६ १२, माशो ६, २, ६,
 १ हिशो १२, ७, २, अत्र ५, २७,
 या १, १७, १०, २१^३, ३१^३,
 ११ २१^३, २४^३, अत्रा ४, ९३,
 -वसे शोशो ९, १, ३, नेताशो
 २९, ५ ३१, २२
 शशयान- शविध- ✓शु शू द
 ✓शम् पाषा भा पर प्लुतवतो
 दस^३- श अप ५३, १, ३, -शम्
 आपिशु ३, २, २ २८
 शशक^३- कम् अप ७०^३, २३,
 ७
 शशक-शशक गोषा खड्ग-
 कूर्म-वज्रम् विष ५१, ६^१
 शशका(क-आ)कृति^३- -रय
 अप ६१, १, ७
 शश-कर्म^३- -जो अत्र २, ८, ९,
 अत्र २०, ११९^२, -जो दाश्री
 ८, २, ८, लाशो ४, ६, ८
 शशकर्म नक्ष(म>)सा- हा
 लाशो ६, ३, २१, निम् ६, ३
 २१
 शशा(श अ)क^३- -श गु २३,

६
 शशा(श अ)क^३- -कम् अप ६८,
 १, २४, -क्रे अप ६८, १, १२.
 शशाक-नक्ष-सेविन्- -विन
 अप ५२ ८, ३
 शशाक-शत-सकाश- -शम्
 विष १, ४१
 शशाको(क-उ)दय- न्ये विष
 २०, १६
 शशिन^३- शिन अप ५३, १, २,
 शैवि १६६, याशि १, ३२,
 वाजयो ७, २०, -शिनम् अप
 ५३, ४, १, -शो अत्र ५०, ६, २,
 ७०^३, ११, ५
 शशि भास्वर- श्री अप
 ५३, ३, ५, शम् ४५७ १२
 शशि शुक्र- -कयो वैपु ४,
 १४ ६
 शशि-वल्गम, भा^३- -भम्
 अत्रा ५, २, -भाम् अत्रा १, ४
 शशरमान^३- -न अप ४८, ९, निष
 ३, १४^३, ४, ३, या ६, ८^३,
 -नम् माश्री १, ८, ३, ३, -नरय
 साम २, १४४, -नाय आश्री
 ३ ७, १२
 शशशय^३- न्य आश्री ३, ७, ६, ४, ५,
 ४, आपशो १५, ९, ६, शोशो
 ९, ९ ९, भाश्री ११, ९, ८,
 शैशो १३, ११ १०, हिशो
 २४ ४, २, आपिशु ३, १०, २
 ६, वीपु २, १, १०, वीणि ३, ९,
 ३
 शशयान- ✓श्री १

a) शश्व इति पाठः वनि शोष (तु शोशो अत्र) । b) वस > वस । c) स्या शिर<>
 शितो इति पठे । d) वस । e) वस । f) शृणु इति पाठः वनि शोष । g) वैपु १ द ।
 h) = उवक- । i) = अत्र- । j) = १२४ । k) स्वर्ण प्र । l) शशकशाल इति शेष ।
 m) = शवि विरेष- [अत्र अत्र] साम विरेष । वस । n) शशिक इति पाठः वनि शोष (तु अत्र) ।
 o) नाय । वस । p) = पन्द्रस्- । q) = पनिष्ठा-नस्य- । वस । r) या अपांवा इति ।

शशादन- (> शशादनक- वा)
 पाग ४, २, १२७
 शशीय(स्>)सी- सी वृदे ५,
 ६४, -सीम् शश २, ५, ६१, वृदे
 ५, ६१, ८०
 शश्वस्यै √श्व द.
 शश्वत्- पाग २, १, ३७, ४, ५७,
 ३१, १२, ४, ३, १६०, ५, ४,
 ३८०, -श्वत् शशी १५, १७, १,
 २२, १, वाशुली ४, २८ ७x४,
 निम्, अण ४८, ६६१, निम्
 ३, ११, -श्वत्. पाग १, १८,
 ४, तैमा ८, २४, -श्वत् वाशी
 ११, ३: १४, १७, ३४: ३,
 -श्वत् वाशी १२, २०, २१,
 -श्वत् वाशी २, १, ६, १२,
 १, ५, अणाय ६, १, -श्वत्
 वा १४ २३१०
 शश्वती- शी शश २, ८,
 १, वृदे २, ८३, ६, ४०, -शी
 वीशी ७, ४, ४१, -शीनाम्
 वीश ३, ५, १११, -शीम्
 वापशी ३, १४, १, वाशी ३,
 १३, १, हिशी २, ६, १४
 शश्वत्- पा ५, ४, ३८, -श्व
 सु ७, २, आशित २, ६, ५- ११,
 वीश २, १, १६, वाश ३, १५,
 २८, वण, -श्वत् विध ३,
 ६१, ६३
 शश्वती- शीम् सु २८
 २, माय २, २८. १०१

शश्वतिक- क वाप १, २३,
 २, हिप १, ६, १०, वा २, ४,
 १, -श्वत् शश १३, १४
 शश्वतिक- (म>) मा-
 -मा मा ४, १६
 शश्वत्- शम, मा- पाग ६, १, १५६,
 -श्वम् आरणं १, ७, २; शैशि
 ३१४, -मा वा ४, १६१०
 शश्वत्- गामिन्- मिनी वा १४,
 २३.
 शश्वत्- श्रावण- णम् निम् २, १०:
 ३, ३, १ २३, ४, १२ ३६,
 ५, १३- १८, ६, १: २१, ७,
 ८: ४, ९, १: ४९.
 शश्वत्- श्रावण- निगम- -म
 शश्वत् १, १.
 शश्वत्- श्रुत- -गामि कौत् ४९, ११.
 √शशवाप वा ३, १, १०.
 √शश्व पावा भा पर. हिमायाम्
 शश्वत्- प्रम् श- द
 शश्वत्- पाग ४, १, ४१
 शश्वत्- पा ४, १, ४१, वा, पाग
 ४, ३, १६५६
 शश्वत्- पाग ४, १, ४१, ५, १०८
 शश्वत्- पा ४, १, ४१, पाग
 ५, ३, १०८, ६, १, १५३०,
 -शी शश १, ३४, २, विध
 ९६, १२, -श्व. शीम् १३८,
 २, कता १५, ३
 शश्वत्- पा ५, ३, १०८
 शश्वत्- पाठ ३, २८, पाग २, १२००,

-शश्वत् वाशी १७, ३१:
 १९; -शश्वत् वापशी १८,
 १४, ७; १९, १, १, वाशी;
 -शश्वत् वाशी ७२, १४, -शश्वत्
 आपशी १९, १, ९, वाशी ३, २,
 ७, ४, हिशी १३, ८, ६.
 शश्वत्- वा ४, २, १२७.
 शश्वत्- शश- -श वाशी १९, १, १८.
 शश्वत्- शश- -शानि वाशी १९, १,
 २३
 शश्वत्- शश- -शे माशी ५, २, ४,
 ११, १९
 शश्वत्- शश- -श कौत् २०, २३
 शश्वत्- शश- -विषाम् कौत् २०,
 १४.
 शश्वत्- शश- -शानि वा १, १३,
 ११, वाय १५, ५
 शश्वत्- -शश्वत् अण ४८, ७९, निम्
 ३, ७.
 √शस् √शस् द
 √शस् पावा भा पर हिमायाम् >
 शश्वत्- -शम् वाशी १०, ८, ७
 शश्वत्- वा ७, २, १९
 शश्वत्- पाठना २, १२.
 शश्वत्- पाठ ४, १६४, वा ३, २,
 १८२, -शम् वापशी ७, १,
 १३, वाशी ३, २, ६, ४४, वैशी
 १०, १ १०, शश्वत्, -शश्वत् वाप
 ७०, २१, २, ७०, ११, ७, शश्वत्.
 -शश्वत् आशित ३, ५, ६ ४,
 वीपि ३, ४: २०, -शश्वत् वाप

१) मापादक- इति वास्य इति वास्य । २) वैप १ इ । ३) तु पावाम् । ४) सत्वत्- टि
 द । ५) = वृत् । ६) वैप १ निर्दिष्टो समवेत्त इ । ७) = शश्वत्-पुत्रिका- । ८) सपा शश्वत् (शी ७, ८,
 ८ तैमा ३, ११, ४ न) <> शश्वत् (मा ४०, ८ वा ४०, १, ८ न) इति पाठे । ९) नाप (शश्वत्-)
 १) = सत्वत्-पुत्रिका- । २) शश्वत्- इति (पश) पावा । ३) तु पावा । शश्वत्- इति मापशा प्रयु ।
 ४) = शश्वत्-पुत्रिका- । ५) = कर्ष रश्म । ६) = शश्वत्-पुत्रिका- । ७) पाठे वैप १ शश्वत्-पुत्रिका-
 टि द । ८) = रूप । ९) वा ६, ४, १८६ पराश्रुट इ । १०) शश्वत् इति पाठ १ इति
 शीघ्र (तु आशित) ।

५३, ५, १; -लेख वीपि १,
३: १४; २१; २६; वैपु; -कै:
अप ६२, २, ३; विप १, ४३.
शकी- खराम् पापया ३,
३, १०४.
शख-कर्मन्- भं शज्यो २, ६;
७, ३.
शख-कार्य-लाघ्रा(स-आ)पस-
न्सानाम् अप ६५, २, ४.
शख-कोप-भय- यम् अप
६४, ६, ३.
शख-ज्यलन-संसर्प- -पं: अप
६४, ५, ६.
शख-दुर्मिष-संपात- -तै: अप
५३, ६, ३.
शख-धारण- -गम् शीघ १२.
शख-धारिन्- -नी वाध १९, १९.
शख-नित्य-आ- -तया विप ३,
६९; -ता विप २, ६९.
शख-पाणि^० > णिव्-
-गिन: अप ७१, १४, २.
शख-पाणि^० -णि: वाध ३,
१६; शीघ ३२८.
शख-पात- -नेन अप ७१, ६, २.
शख-पातन- -नम् अप ७०,
७, १२; ७१, १०, ५.
शख-प्रत्यहन- -ने अप ७१, १, ४
शख-प्रहार- -रामाम् आभिपु
२, ५, १: ५०.
शख-भय- -यम् अप ५८, १,
९; ७०, ३, ४; ७, ८४४.
शख-भृत्^० -भृताम् गौप२२, २
शख-भ्राम- -म: अप ५७, २, ८.
शख-मुष्टि-प्रहार- -रेपु अप६८,

२, ४०.
शख विप रज्जु-अल-द्वर्वाकन-
मास्त-तह पापाणो(श-उ)क्त्वा(?)
क्त्वा^०)सना(न-आ)दि- -दियु
आभिपु ३, ११, ४: ४१.
शख-विप-रज्जु-अला(ल-अ)चल-
मास्त-तह-पापाण-दुतानामा (न-
अ)मुच्छ्वासना(न-आ)दि-
-दिन्म वीपि ३, ७, १.
शख-संपात- -ते विष ३०, ११.
शख-संपीडा- -शाम् गोरु ४, ५,
२१.
शख-सर्व-संपात- -त: अप
१८, २, २६.
शख स्पशंन- -नात् वैपु ७,
४: ३.
शख-द्वत- -तानाम् विप ७८, ५०.
शख-द्वर^० -स्तेन अप १,
२७, ४.
शखा(स-आ)कुल- -तम् अप
५४, १, ५.
शखा(स-अ)धि-वृष्टि-तम् (:)
अप ५९, १, ५.
शखा(स-अ)म्यु(सि-उ)पात-
-त: अप ६३, ३, ३.
शखा(स-अ)नाशका(स-अ)शि-
रज्जु-भृशु-अल-विप-प्रमापण-
-नेपु शीघ ३५५
शखिन्- -त्री वीथी १६, २१:
२; २६, १०: १३.
शखो(स-उ)पजीविन्- -विन:
अप ५७, २, ६.
शखोपजीवि-कुल^० - -ज्यान्
अप ५०, २, ६.

शशाक^१- -सम् काथी ६, ४, ११;
वीथी ४, ६: १७; १९; पाट २,
३, २६; आभिपु ३, ५, २: १४;
वीपि १, २: १७; -सा: वीथी
२६, ११: ११; -सेन वीथी १५,
२५, ११.
शास-शैपा(स-आ)दि- -दि
काथी १६, १, १३.
शास-द्वस्त^० - -सम् वीथी १५,
२४, ११.
शास-चटतवर्गायि- -घ- द.
शसन- ✓शम् द.
शासल- -घ- द.
शशस्त- ✓शम् द.
शशस्त- ✓शम् द.
शशस्त- ✓शम् द.
शशस्त- ✓शम् द.
शशस्त्र- ✓शम् द.
शशस्त्र- ✓शम् द.
शशस्त्रिन्- ✓शम् द.
शशस्त्रिन्- ✓शम् द.
शस्त्या, शस्य- ✓शम् द.
शशस्व^१ - -स्वम् शीघ २८२.
शशस्व(स-अ)पवाध- -शे शीघ
३०६.
शस्यमान- ✓शम् द.
शशांशुच- शम्-> शंशु- द.
शशांशुच^२ - -स्व: आट ४, ८, २६.
शांशुप- -पक- शिशया- द.
शांशुपायन- शिशया- द.
शांसित्य- , शायनी- शंसित- द.
शशाक- ✓शम् द.
शशाक- शश- द.
शशाक(वमा.)^१ - पाठवृ ३, ४३; वाम

a) शिशया इति बीधं. b) मलो. कस. c) वस. d) विप. > नाप. e) पाठः इति. शोव: (वृ. वीपि ३, ७, १) f) परस्परं पाभि. g) शो सखे सं इति मूत्रो. h) उप. अर्थः १। i) नाप. वैप २, ३६. द. j) = सत्य. k) वप. पाठः शाम्यप्य- इति शोवः इति Old. l) = अश्वन-विधिप. वृध-विशेष- (आट. प्रमु.)

२४,३१; ४,२,१०; -कः आण
 २,७,६; -कम् वीथ २, ३,१९;
 ३, १५, २; छाण्ड ३, १२, २,
 आग्निषु ३, १, २: ३७; छाण्ड;
 -के आप्त २, २८, १०; द्विष
 २, १४, १०; -केव काण्ड ६१,३;
 -के अथ ४४,३,१०; वाथ ११,
 ४०; वाथ २१८; विष ८०,१.
 शाकी^१ - (> शाकिन- पा.)
 पायवा ५,२,१००.
 शाक-जडम^२ - भान्याम् वीथी
 १७,४१: १, आप्त २,७,११-
 २३; आग्निषु १, ३,३:१४; भाण्ड.
 शाक-द्वीप^३ - अथ वाथ ११६: ४.
 शाक-पलला(ल-श)क- - नपो:
 काण्ड ७०,६.
 शाक-पलाश- - शोन कौमु ११६,६.
 शाक-म्विष^४ - अथ आप्त ७,८,३.
 शाक-वि(शड >) ण्वी- - म्दीवि.
 वीथ १,७,२१; शाण्ड १,११,५,
 काण्ड २२,१.
 शाक-पुष्प-कलौ(ल-ओ)पवि-
 -धीनाम् वीथ १,५,६७.
 शाक-कल- - सानि कौमु २०,४.
 शाक-सस- - शा वीथ ३,३,३.
 शाक-सस-ता- - ता वीथ ३,१०,
 १२; वीथ १९,१४.
 शाक-मांस- - यव-विष्ट-विचार-
 -रेम्यः गोण्ड ३,५,१०; प्राण्ड ३,
 १,२७.
 शाक-मांसा(ल-अ)रु- - पानि जैण्ड
 २,३: २, -पै: विष ७४,१.

शाक-मूल-फल- - खानाम् विष ५,
 ८६; -लानि शंष १८३; वैष ३,
 ४,१.
 शाकमूलफला(ल-आ)वि-
 -दीम् वैष ३,५,१.
 शाक-मूल-फल-पुष्प- - अणाम्
 विष २३, १५.
 शाक-भ(र >) शी^५ - - याम् विष
 ८५,२१.
 शाक-यूप-मांस-सर्पिश्चत-धान-
 -गुह द्विष-मधु-सक्तु-वर्जम् वीथ
 १,५,१४०.
 शाका(क-आ)दि-होम- - मः वक्र
 २,८,२३६.
 शाका(क-अ)गहारिन्- - नी शंष
 ३७८.
 शाका(क-आ)विन्- - शी विष १५,
 ९.
 शाका(क-अ)डका^६ - - का पाण्ड ३,
 ३,१३; जैण्ड २,३: २.
 शाकिन-> शी^१ - - नी वृदे ६,
 १३८; वा ६,५.
 शाकीय- - पा ४,२,९०.
 शाको(क-उ)वक- - केम्यः शंष १२०.
 शाका^७ - - पाण्ड ४,१,१८; १५१.
 शाकायन- - पा ४,१,९८.
 शाकापम्ब- - पा ५,३,११३.
 रशाक्य- - पा ४,१,१५१.
 शाक्य प(दु>) शी^८ - - पाण्ड ५,
 ४,१३९.
 शाकट- १ शकट- इ.
 शाकटायन- २ शकट- इ.

शाकटी- १ शकट- इ.
 शाकटीकर्ण- शकटीकर्ण- इ.
 शाकण्डी^९-
 शाकन्धव्य- शकन्धु- इ.
 शाकन्धेय- शकन्धि- इ.
 शाक-पाथिय^{१०}- - पाण्ड २, १, ६९.
 शाकपूणि^{११} - - णि: निम् ४, ९: ६;
 वृदे ३,१३०; १५५; ५,८; २३;
 ६,४६; ७,७०; ८, ९०; साम्य;
 -फणिम् छाण्ड ४, १०, ३; अथ
 ४३,४,५६; -जे: वा १३,११.
 शाकल- १ शकल- इ
 शाकल- , शक- २ शकल- इ.
 शाकलिक- १ शकल- इ.
 शाकलेय- , शाकल्य- प्रष्ट.
 २ शकल- इ.
 शाकिन- १ शक- इ.
 शाकिन- (> शाकिन्य-पा.) पाण्ड
 ४,१,१५१.
 शाकुल- शकुल- इ.
 शाकुलेय- शकुलि- इ.
 शाकुन्तक- शकुन्ती- इ.
 शाकुन्तकि^{१२} - (> न्तकीय- पा.)
 पाण्ड ५,३,११६.
 शाकुलादिका, की- शकुलाद- इ.
 शाक्तिक- प्रष्ट, शाकसन्- ✓ शक इ.
 शाक्य- २ शक- इ.
 शाक- , शाकवर- , शाकवर्ष- ✓ शक इ.
 शाखा^{१३} - पाठनो २, २, ४८; पाण्ड ५,
 २, १३६^६; ३, १०३; -लया
 काथी ४, २, ७; ४२; आप्त १,
 २, ४; ५×४; वीथी; -लया:

a) = महत्-शाक- वा शाकसमुह- वेति पाण्ड. । = १ शाक- इति MW. । b) दिवविशेषयोः इत्य. ।
 c) = शाकद्वीप-अन्यतम- । एष. = शक-विशेष- । d) = शक-पाठ- । e) पञ्चविः इति पाठः ? यनि. शोषः (द्व. शाण्ड.) ।
 f) = शक-विशेष- । उप. खण्ड प्र. । g) पञ्च होम. इति शीत. । h) = शक-विशेष- । मलो. वत्त. । i) = शाक-
 शक- । j) अथ. । k) इ. पाण्ड. । l) इ २३८२ k इ. । १) एष. = १ शाक- इति पाण्ड., = जाति-विशेष- इति
 पाण्ड. पाणि. । n) < शाकण्ड- इति इ. (वा २, ८), शकपूष्प- इति PW., शकपूणि- इति MW. ।
 o) = शाकपूष्प-विशेष-विशेष- । p) शक्य (द्व-शाखा, मन्व-शाखा- प्रष्ट.) । वैष १ इ. ।

धीष २, ८, १४; -रा काथी
 १५, ३, २७; वीथी २०, २५ :
 ११; काथी; गुम १, १९;
 -राः वीथी २, ६ : २१; ४, १ :
 २६; १४, २८ : ४; ५; वीथी;
 क्व ४८, ८२^{१०}; च्यू १ : ७;
 निष २, ५^{१०}; या १, ४^{१०}; ६,
 ३२^{१०}; -राभिः वीथी १०, ५ :
 ४, १०१ ५२, ५; ५४, २; वीथु
 ८३, १८; -राभ्याम् वीथु ९०,
 २४; -राभ्यं काथी ४, २, ११;
 १४, ३, १७; ४, ५४; काथी;
 वाण ५१, १९; -राभ्याः आपथी
 १, ६, ७; वीथी २०, १ : ५८;
 माथी; -रापान् काथी १, ६,
 ९; १५, १६, ४; भाथी ११,
 १६, ५; माथी; वीथु २, ४, ३१;
 -राभ्यं वीथी १, ३ : १; १२,
 ६ : २४; -रासु आपथी ९,
 २०, ४; वीथु २७, १०; -ले
 काथी ८, ५, २६; १०, २८,
 ३४; वीथी २०, २५ : १०;
 द्विथी.
 शाखा(रा-प्र)भिः - प्री काए ५१,
 ११.
 शाखा(सा-अ)दि- दिषु पावा ५,
 १, २.
 शाखा-निबोजन- नम् काथी ६,
 १०, ३०.
 शाखा(सा-अ)न- ना च्यू २ :
 २३, -राव काथी ३६ : १४;
 -रे आपथ १, १०, २०; १२, ४;
 द्विष १, १, ४७; ४, ४; -रेषु

वीथु २, ४, ८.
 शाखा-वप- आभि वीथी १, १ : ११.
 शाखा-वपिप्र- -नम् काथी १,
 ११, ५; १२, ३; १४, ६; वीथी.
 शाखा-वपु- -शुनाम् वीथु १, ६,
 २; वाण १, १०, ३.
 शाखा-वार्- -नः च्यू २ : १८.
 शाखा-ग्रहण- -नम् काथी १२,
 २५, १३६.
 शाखाग्रहणा(श-श)न्त- -न्ते
 वीथी १५, ३३ : २६.
 शाखा-भेद-प्रवर्तक- -काः वीथि ६,
 शाखा-वत्- पा ५, २, १३६; -वन्ता
 क्व ६५, १, ११.
 शाखा-विशाखा- -नयोः वीथु ३,
 १०, २९.
 शाखा-संयोग- -नम् काथी ४, २,
 १३.
 शाखा-मूल- -नम् वीथु ३४, ९.
 शाखा-वृक्ष- -स्तानाम् वापुथी ३,
 ७९ : ८.
 शाखिन्- पा ५, २, १३६; -नितम्
 वु १३, ४.
 शाखी(वा-उ)दकधारा- -नयोः माण
 १, १०, ४.
 शाख्य- -नयः पा ५, ३, १०३.
 शाखाशुक्रुकाशालानि काथी ३, ४, ५,
 २२.
 शाख्ये^१ (> ^०विन्-)
 शाख्ये^२ - -नाः वीथी ३ : १२;
 -नाणाम् वीथी २६ : २.
 शांकरि-, -थं- शम्- द.
 शाङ्ख्य-, -न्यायनी- २शक्- द.

शाङ्खायन^१ - -नाः वीथी ३१ : ४.
 शाङ्कपथिक- १शक्- द.
 शाङ्कर^२ - -नय क्व ३, ४, ११.
 शाङ्क- १शक्- द.
 शाङ्कमित्रेय-, शाङ्खायन-, -न्यो-
 ३शक्- द.
 शाङ्ख्य- १शक्- द.
 श्वाङ्ख्य- २शक्- द.
 शाचीदेव^३ - -न्याथी २०, ५, १८; काथी
 २०, १६, १९; वीथी १५, २६ :
 १; द्विथी १४, ३, ४७; वाशि २,
 २१; मुवा २, २०; ५०.
 शाट->शाटी->शी-मटीर-, -श्री-
 पदि(का>)क-, -श्री-विच्छक-,
 श्री-वृक्ष- पाग २, ४, ११.
 शाटक^४ - > ^०कनुमा(ग-आ)य,
 (दि-अ)थं- -थंम् पावा १, १,
 ३६.
 शाटीरुर्ण- शटीरुर्ण- द.
 शशाठ्य- १शट- द.
 शशाठ्य- २शट- द.
 शशाठ्यमुत्र^५ - -नाः च्यू ३ : ४.
 शाश्वायन-, -नय-, -नि-, -विन्-
 श्री-, श्रीय- २शट- द.
 शशाठ्य- १शट- द.
 शशाठ्य-, -न्यायन-, -न्यायनि-
 २शट- द.
 शशाठ्य पावा. म्वा. शाव. शापा-
 यम्.
 शाशिकाहायनि^६ - (> शाशिकाहा-
 यनीय- पा.) पाग ४, २, १३८.
 शाङ्खल- शाङ्खल- द.
 शशाण- प्रम्. १शण- द.

a) = [उपचाराद-] देवना. b) अङ्गुलि-नामन्. c) = [एक-शाखा-] वपाथपथी- (तु. पृ ४११ म्). d) इत. e) नय. (दर्भ-वि. आपथी १, ६, ९१)। मयो. क्व. f) = संविद्यासक-प्रकार विशेष-। g) परस्परं पाथे. h) वस. i) पू. = एक शाखा- (तु. पृ २२५५)। j) कापेय-टि. द. k) क्वप. l) संरुद्रुः टि. मृगति. पाथे. m) वैप १ द. n) स्वाथं प्र. o) = सामशाखा-विशेष, वा तदर्थेत्-वा। साथ्यं मु^० इति संरुद्रुः टि. p) वृ. वाशि.।

२शाण- (>शाण्य- पा) पाग ५,
३, १०२^३

शाणायन- २शण- इ

शाणी- प्रभु १शण- इ

१शाण्डिकेर^०- २ आभिय २, १, ३
१३^०

शाण्डिक्य- शण्डिक- इ

१शाण्डिल- 'श्व- 'व्यायन-
'व्यायनक- 'व्यायनीय-

शण्डिल- इ

१शाण्डिकेर^०- २ द्विष्ट २३, ७^०

शातकुम्भ- 'कौम- शत- इ,

शातद्वारय- शतद्वार- इ

शातन- 'शी- √शद् इ

शातपत- 'पय- प्रभु शत- इ

१शातपन्त^०- 'न्ता निघ ३६^१

शातपुत्ररु- 'भिय- प्रभु शत- इ

शातयव- 'वित्- √शब् इ

शातलेय- शतल- इ

१शातवृ^०- कन्वा अर ४८, ६४^१

शातशूर्प^०- वै निरू ४ १२ १

शातातप^०- नम् शप ११६ ४०

शातावरय- २शतावर- इ

शाताहर- शताहर- इ

शातव- 'शातुवपि- शतु- इ

१शाद्- √शद् इ.

२शाद् दा^०- पाठ ४, १५, -'दम्

बाथी ३ ४, ५, ११, माष्ट १

२३, २० शुभ ३ ४४, ४६,

बाभ ४२ १२, -दा अर ३,

१०, १५^१

शाद् प्रवृत्ति- 'शग (ह-श)-ल-

--तेभ्य काथी २०, ८, ४.

शादा-समित- -लम् गौष्ट ४, ७,

१३

शादि- क- इ

शाद्द, ह्व^०लि^०- पा ४, २, ८८, -लम्

पाष्ट ३, ४, १, माष्ट २, ५ ३, -ल

विष ६०, ७, ९९, १४

शाद्दवल-वल्- -वति पाष्ट ३, १०,

२२

शाद्दलो(ल-उ)रयन दिव्यच्छाया-

-यामु आभिय २, ६, ८ ५

शाद्दल-सस्थित- ताद कष ३, ३, ३

शाद्दलो(ल-उ)रयनीय च्छाया-

-यामु वाष ६, १२

शाधि- (>शाधी-पा) पाग ४, १,

४५

√शान्^० पाषा भ्वा उम तेज्जे

शान्त- प्रभु, १शान्ति- √शम् इ

२शान्ति^०- -ति वीथीप्र ४६ ४

शान्तिक- प्रभु √शम् इ

शाप- प्रभु √शम् इ

शापयद्वायन- 'भक- शपयद्- इ

१शापघेत्रिकोदकेन आभिय २, ४,

६ २०

शापायन- शप- इ

शापे(प द)ट^०- -म् वीम् १८, २, ७

शापेय- 'पेविन्- शप- इ

शाफेय- 'विन्- २शक- इ

शावर- 'पायण- शवर- इ

शावली- (>शावल-) रवालि-

दि इ

शावलीय- २शवल- इ

शावलेय- २शवल- इ

शान्त्य- १शवल- इ

शाब्- 'शाब्दिक- शाद्- इ.

शामिक- शमिन्- इ

शामित्र- प्रभु √शम् इ

शामील- प्रभु ३शमी- इ.

शामीयत- 'वाय- ३शमीवत्- इ.

शामुल^०- > शामुल-व^०- -कानम्

वीथी २६ ३० २७

शामुल(ल-अ)जिन- -नम् वीथी

२६, ३२ २७

शामूल^०- -लम् बाधुथी ३, ४४ १^०,

साथी ९, ४, ७

शामूल परिद्वि^०- -ल वीम् ६२ ३

शामूल-वासस^०- -ससः वीथी १८,

४८ २१

शामूला(ल-अ)जिन- -नम् वीथी

१८, २५ १०.

शाम्येय^०- (>०विन्-)

शाम्यवक- कम् वीम् २, ५ १

शाम्यव्यायन- -ना वीथीप्र २७ ३

शाम्यु^०- -न्मुय्य अश १९ ३१^१

शाम्युरायण^०- जा. वीथीप्र २० १

शाम्य- ३शमी- इ

शाम्यमान- √शम् इ

शाम्यवाक^०- कम् काष्ट ७२ १

शाम्याक, की- शम्याक- इ

१शायाण्ड- शयण्ड- टि इ

२शायाण्ड- पाठमी २, २, ११७

शायाण्डायन- प्रभु शयण्ड- इ

शायाण्डित^०- -नः वीथीप्र ७

शायन- प्रभु- √शी इ

द) इ २३७५ म इ । b) = शालवह विशेष- । c) पाठे इ २३५८ b इ । d) शुभ नामम् ।
 e) वैष १ इ । f) परस्पर पाठे । g) = शाकपन्न- (इ वैष १) । h) -यप । i) = शक- । j) पाष्ट
 आभिय माष्ट पाठ । k) नाप (द्विष्ट वृण) । l) इय > वस । m) वीथ १ ८७ या पावा ३ १, ६
 पराश्रु इ । n) नाप । मलो वर । पू = नदीप्राहात वर्तति [इ वैष १] उप = १मट- । o) = शामूल ।
 p) वीथी प्र । q) = कर्ण वासत (इ वीथी भाष्यम्) । r) अर्थ १ । s) वस । t) इ २३६४ वृ इ ।
 u) = वनवति विशेष ।

२ ८^२
 शाला कर्मन्- मं पाठ ३,४,१, माण्ड
 २,३ १
 शाला-सण्ड- षडम् वीथी ९ १
 १३, १०,१ ११, -षडे वीथी
 ६,६ १४,१६, ९,४ २८^२xx
 शाला गार्हपत्य पुरोडाश-पत्नीसंवा
 स-जा काश्री १२,२,११
 शाला(ला प्र)ति- शय गौपि १,
 १,१६, -मिना पाठ ३,१०,११,
 -तिम् माश्री १,५,१, १४, माण्ड
 २,१,१, -मे द्राश्री ७, ३, २,
 लाथी ३, २, गोष्ट ३, ७, ३,
 -श्री थाण्ड २,२,५, पाण्ड ३,१०,
 ३३, काण्ड १,६, गोष्ट ४, ४, ७,
 अप २३,१०, ४, गौप ११,१६
 शालानि देवता->त्य-त्यम्
 अथ २,१४
 शाला वृण- गानि कौष्ट १८,१०,
 -नेषु कौष्ट ८०,३
 शाला देवता->त्य-त्यम् अथ
 ९ ३
 शाला द्वार- नागि काश्री ७ ६,५
 शालाह्वय^३०- र्च शुभ १
 ३४७, -वैम् काश्री ८, ६, २९,
 ३०, १ १०xx, -पात् काश्री
 १२, १, २५, २,१, -वै काश्री
 ८,३, २५, ८ ३७ १,२xx,
 वेताश्री १६,४
 शालाह्वयो(र्च-उ)पस्थान-
 नम् काश्री १७ २,५
 शाला निवेशन- नम् कौष्ट ८, १,
 ७२ ४, ८२ १४
 शाला(ला-प्र)न्तर- पूरे भाष्य २,
 १७,८ हिय २५ ३७

शाला-प्रवेदान- नम् काश्री १२,
 ४,७
 शाला-प्रत्य- पा ६,२,८८
 शाला विल- पा ६,२,१०२.
 शाला-नाल- नम् काण्ड १,२०
 शाला मुख->पत्नीप^४- न्य
 वीथी ६,२२:७, माश्री ३ ८,८,
 अत्राय ६, १, -वम् काश्री ४,
 १०, १, काश्री ६, १२, २५,
 थापश्री, -पत्य आश्री ४, १०,
 ६, काश्री ५,१४,६, १०,७,१०,
 माश्री २,२,५, १५, काश्री ३,२,
 ४, १०, -यात् वीथी ६, २२
 ७,९, २५:२६, २७,१० . २२,
 माश्री ३, ८, ८, अत्राय ६, १,
 -ये आपश्री ११, १७, २, १३,
 २३, २, १४, ७, १६, ३१,६,
 १६,२२, १, वीथी, -वेन काश्री
 ३,२,४,१०
 शालामुखीय-देवा- शम्
 माश्री ६,१,५,१
 शालामुखीय-होत्रीयो(य-ओ)
 चरवेदिक- कशाम् आश्री
 ११,७,१०
 शालामुखीय(य-अ)रिनि-
 यो वैथी २१,१० ४.
 शालामुखीयो(य-उ)चरवेदि-
 क- कौ काश्री १६२
 शालामुरय^५- न्य वृष्टे ७,६७
 शाला-वल्- पा ५,२,११६
 शाला वलीक^६- कम् कौष्ट २४,
 १२
 शाला(ला भा)अथ-त्व- स्वात्
 वीथ ३,१,३
 शाला-नदस्- इती काश्री १०,२,

१२
 शाला(ला-भा)गना स्यन्^६- न्यो
 काश्री ७,५,७
 शाला सूत्र- नम् अथ ३,१२
 शाला स्तम्भ- नम् काश्री ७, १,
 ३०
 शाला-स्य- न्य कौश्रीका ७३
 शालिक-, शालिन्- पा ५, २,
 ११६
 शालीन^७- पा ५, २, २०, -न
 आपश्री ५,३, २२, वीथी १८,
 ८ १०, १६ ६, ४० १९,
 हिथी ३,२,३२
 शालीन त्व- न्यम् वीथ ३, १,
 ३७
 शालीन-वायावर- राणाम् वीथ
 २,७,१, १०,३, ४२
 शालीनवायावरा (र-आ)दि-
 वृषन्तर- नम् वृष्ट ४ २ ९
 शालीन वायावर चक्रचर-
 धर्म-कादिस्य- दिक्षणाम्
 वीथ ३,१,१
 शालीन युक्ति^८- नति वैथ १,५,
 १,३७
 शाले(ला इ,६)- न्ने पावा ६, १,
 १२३
 शालाक- शलाका- इ
 शालाका- (>शालास्य- पा)
 पाण्ड ४,१,१५१.
 शालाकाभ्रय- शलाका- इ
 शालाकेय- श्य- शलाका- इ
 शालाचल^९- (>शालाचलेय-)
 शालातुरीय- शलातुर- इ
 शालाथलेय- शलाथल- इ
 शालायनि- शाल- इ

a) तथा "शला" <> "शलाक" इति पाठे । b) नाप (अति) । c) भवार्थे यत् प्र । d) नाप (अति, शशुद्ध-पठ) । e) = शालामुखीय । f) उप = फल- इति वारिक । g) धत् > इति । h) विप, नाप [शशुद्ध मर] । i) = शशुद्ध-भेद । j) वृ २३८० b इ । k) वृ २३८० j इ ।

शालालि^१- लयः वीथीप्र १७: १०.
 शाला-चत्- शाला- द.
 शालावत्^२- > शालावत्- वाः
 वीथीप्र ३१: ७, ४९. ३.
 शालामत्^३- वा ५, ३, ११८.
 शाला-चलीक- प्रम. शाला- द.
 शालास्थलि- (> क्त्वा- वा.) पाग
 ४, १, ८०.
 शालाहलि^४- लयः वीथीप्र १७: ९
 शालि^५- पाठमो २, १, १६८, पाग ५,
 २, ११६^०, ४, १५१^०, -लय कप्र
 २, ५, २१, ३, ७, १३, अशा १२,
 ३, ४.
 शालिक- शालिद्- वा ५, २,
 ११६.
 शालि-बाल- लेखु माण्ड २, १३, ३.
 शालि विष्ट-म(य >)यी- वीम्
 अय ३६, ५, १
 शालि-मत्-, शालिक^६- वा ५, २,
 ११६
 शालि-बीहि- द्विभि वैष ४, १३ ७
 शालि-बीहि-यव- नानाम् वैष ३,
 १ ८.
 शालिक- शाला- द.
 शालिकि^७- कि वीथ १, ७, ४८, ४,
 ५, ६
 शालिन्- शाला- द.
 शालिन्^८- (> क्त्वा- वा.) पाग ४,
 १, ०५१
 शालिमत्^९- ल वीथीप्र ३० २
 शालिसंधि^{१०}- वय वीथीप्र ३०. १
 शालीकि^{११}- कि वीथी २०, १ ७,

१३: २१, ३८, ४२, ४४, -के
 वीथी २०, ३ २७, ४: ९,
 २१, २२, ५: ३×४.
 शालीन- शाला- द.
 शालीन^{१२}- (> क्त्वा- वा.) पाग
 ४, १, १५१.
 शालु- पाठमो २, १, ५
 शालु^{१३}- लु द्विथी २३, ३, १०.
 शालुक^{१४}- पाठ ४, ४२; पाग ५, २,
 १३५, -कम् वीथ ८३, ३.
 शालुक-शुक्लस-संभाव-पायता-
 (स-अ)पुष-शकुली-देवाध-
 -शानि विष ५१, ३७
 शालुकि(ग >)नी- वा ५, २, १३५.
 शालुक^{१५}- -का अय ९, ४, २.
 शालुक^{१६}- (> शालुकेय- वा.) पाग
 ४, १, १२३.
 शालु- पाठमो २, ३, ५८
 शालु- शाला- द.
 शालुमल- शालि- द.
 शालुमल- पाठमो २, ३, १२०.
 शालुमलि, ली^{१७}- पाग ४, १, ८०^०,
 २, ८०^०, ८२, ६, २, ८५, -लिम्
 योय २, ४, ११^१, -ली अय ९, ४, २
 शालुमलि- वा ४, २, ८२
 शालुमलि- वा ४, २, ८०.
 शालुमलि-दीप- वम् शय ११६: ५
 शालुमली-मूल^{१८}- ल भाण्ड १, १
 ११
 शालुमल्या- वा ४, १, ८०.
 शालुमल्यायनि- शलुका- द.
 शालु^{१९}- पाग ६, ३, ११६^०, -त्वाम्

अय ५०, २, ४, -त्वानाम् अय
 ५०, २, २.
 शा(ल >)क्या-गिरि- वा ६, ३,
 ११६.
 शालु^{२०}- (> शालुकेय- वा.) पाग ४,
 २, १७.
 शालु- शव- द.
 शालु^{२१}- पाठमो २, ३, १२७, पावाग
 ६, ३, ४१, -वम् काथीसं २८ ९
 शालुलिन्- ली अयव ४, ३.
 शालु^{२२}- अशा ९, १.
 शाशदान- √शद् द.
 शाशदानक- शशदान- द.
 शाशाचमान- √शद् द.
 शाश्वत-, शित्-, शी- शश्वत्- द.
 शाशुलिक- शकुल- द.
 शाशुक- शय- द.
 शाशुकेय^{२३}- (> शोधिन्- वा.) पाग
 ४, ३, १०९^०.
 √शास्त्^{२४}, पागा अशा. अयव.
 अतुष्टि, शास्ति काथी ६, ८, १,
 पाग २४, १६, शास्तु वाध २०,
 ४१^१, वाधि वीथ २, १, १६,
 पुंशालन काथी १, ४, १, काथी
 १, ६, १३, अयथी २४, १३, ३,
 वीथी ३, २८: १०, शिष्यात्
 पाग १, १७, १७
 शिष्यते मौम् २, ४, १८.
 शशात्^{२५}- स- काथी १८, १८,
 १४^१, वीथ, अय २, १०,
 १५२^०, १, अय १, ५३२^०, २,
 ३५३^०, वाध २, १२२३^०

a) व्यप । b) = चान्य-विशेष- । c) पृ २३८७ t द । d) शाली- इत्यनि भाण्डा पाति ।
 e) हु. पाका । f) वैष १ द । g) नाग (रुड) । h) अर्थे ? शालुमली- इति पाका । i) पागे.
 वैष १ वदुम् ली १४, १, ६१ टि द. । j) = देव-विशेष- । k) शालुका- इति पागा, [पक्षे] भाण्डा. ।
 l) सागरा- इति पाका. । m) नाग. (शिशु)- । n) पाठ ? इयवैः इति शोध (हु शकद्ध. टि.) ।
 o) शाश्वेय- इति पाका । p) वा ६, १, ६, ४, ३४, ३५, ७, ४, २, ८, ३, ६० पावा ६, ४, ३४ पराम्य द ।
 q) = शालु- (हु वैष १) ।
 वैष ४-प्र-३५

शास्त्र- स्य शापी ७, ४, ६, ५,
 २० शापी, या ३, ४^०
 शासन- -नात् मीत् २, २, ६^०,
 -ने वीथ १, १०, ८, २, १, १६
 शासन(न क)र्थ- -थम् विथ
 ७१, ८१
 शासित- > शा(त-प्र)थम्-
 -न्मा शाप्यो १३, १
 शासित- पावतृ ७, १८०
 शास्त्रम् अपथ २, ६, १, हिथ २,
 २, २
 शास्त्र- पा ७, २, ३४, -हता वाप
 २०, १^०, आपथ २, १०, १२,
 हिथ २, ४, १२, -स्तु आपथ
 १, ७, २६ हिथ १, २, ८३
 शास्त्र- पाप ५, २, ३६, -प्रम् वत्र
 १, ४, १२, आपथ १, १२, ११, २,
 १०, १३^०, वीथ, हिथ २, ४,
 १३^०, -प्रम् पाप १, १, ६२,
 मीत् ७, १, ३ ४, -स्त्रापात्
 नाशि १, १ ४, मीत् ६, २, २२,
 -प्रमां शप १, १६ ३७, -स्त्रात्
 शप १, ३७, ६४, मीत् ३, ४, २८,
 ६, ४, २०×४, -स्त्रे पावा २, ३,
 १, -स्त्रम् शप ३, ४, १, नाशि
 ५, ५, ६ ६ पापवा १, -स्त्रेण
 हिथ १, ४, ३४^०, -स्त्रे आपथ
 १, १३, २१^०, २, १०, १२×
 हिथ
 शास्त्र-कृत- -त या १, २
 शास्त्रकृत-त्व- -त्वात् मीत्
 ६ ६, ३४, ९, ३, ३२
 शास्त्र कोविद्- द अप ६२, ४
 ६
 शास्त्र गर्हा- हां या १ १४
 शास्त्र कोविद्- तम् नाति २

१, ७
 शास्त्र-ज्ञ- हां वेज्यो ३५
 शास्त्र कर्त्तुं () अप ७१, १७, ६,
 शप २, बाणु ७, ११, अपा ३,
 ३, २१, नाशि २, १, ११.
 शास्त्र-दृष्ट- -ष्टेव वीथ ७, १-२, ३,
 शास्त्र इति-विरोध- -धात् मीत्
 १, २, २^०
 शास्त्र नित्य^०- -न्ने विथ ९२,
 १८.
 शास्त्र-पर गिरतिपेधा(प-प्र)
 नियम- -न्मात् पावा ६, १, १५४
 शास्त्र परिग्रह- -ह वीथ ३, ३,
 १८
 शास्त्र-परिमाण-त्व- -न्वात् मीत्
 १, ३, ६
 शास्त्र पूर्वक^०- -न्ने पापवा २
 शास्त्र-प्रवृत्ति- ति अप १, ३२
 शास्त्र पर- -त्म् मीत् ३, ७,
 १८
 शास्त्र-शुद्धि- -द्वया बाणु ७, ६
 शास्त्र शुद्धि^०- -दिति अपा
 ३, ३, २१
 शास्त्र-लक्षण-त्व- -न्वात् मीत्
 १, १, ३, ३७
 शास्त्र-वात् कालु १, १७
 शास्त्र-वत्-त्व- -न्वात् मीत् ३,
 ३, ४३
 शास्त्र-विद्- -न्ति अप ७१, ५
 ४, वीथ १३ २६, वृद्धे ३, ४८
 उम् ८, २२
 शास्त्रवित्-त्वम्- मम् अप
 १, ९, १
 शास्त्र विहित- -ता वीथ २
 ३ ५६.
 शास्त्र समाधि-दर्शन- -रात्

शप ११, ६९
 शास्त्र समुच्चय- -वात् था ७१,
 ७, ४.
 शास्त्र-समय- -न्वात् शापी १, ६,
 २१.
 शास्त्र-सामर्थ्य- -न्वात् पावा
 १, १, ६८
 शास्त्र-(स्य >)स्था- -स्था मीत्
 १, ३, ९
 शास्त्र-शान्ति- -नि पावा ६, १, १
 शास्त्र-(त्र क)तिग- -ना वीथ १,
 ५, ६६
 शास्त्र-(ह क)विदेश- -ना पावा
 ७, १, ९६
 शास्त्र-(त्र आ)दा(दि-अ)वेक्षित्-
 -क्षी विथ ७१, ८
 शास्त्र-(त्र-अ)नुपूर्व- -न्वम् पादि १
 शास्त्र-(त्र-अ)पवाद्- -दत्त् शप
 १, ३, ६८
 शास्त्र-(त्र-अ)पहारित्- -ती शप
 ३७८
 शास्त्र-(त्र क)र्थ- -न्वम् वीथि
 १, ५६, नाशि १, २१, नाशि १,
 ६, १३
 शास्त्रार्थ विद्- -विद् अप
 ७०^०, ११, ११
 शास्त्रार्थ-समायय- -न्व पावा
 ६, १, ८३.
 शास्त्र-(त्र क)सिद्धत्व- -न्वात्
 पावा ६, १, ८५
 शास्त्र-(त्र क)दानि- -न्ने पावा
 ६ १, १
 शास्त्रित- पा ५ २, ३६
 शास्त्र-(त्र ए)क-त-परायण- पा
 विथ १, ४७^०
 शास्त्र- स्य विथ ५, १६०, १७०,

a) शास्त्र इति जीव प्रश्न । b) भाप (शासन) । c) परस्पर वाम । d) दृष्ट इति जीव प्रश्न ।
 e) वथ । f) शास्त्रकृतपरा इति सप्तद्वे टि ।

गौष २, ५१, -स्यम् विध ७१,
८१, -स्थौ विध ५, १६६
शिक्षा- ए सु १९, १, वाध २, ६,
क्षय ३८४ गौष २८, ५१, अत्रा
३, ३, २१, -द्वय वाध ६, ४२,
गौष १९, ३, मौसू ६, ७, २१,
७, ४, २०, -द्या वाध ६, ४३,
गौष १, १, ५, ६, २, १, ५०,
श्रम ३, ३६, -द्वेष्ट वाध २,
२४, ३, द्वि २, ५, १६८, -द्वै
क २ १०, १६, शय ३२२,
गौष ३ १, २२, गौष २८, ४९
शिक्ष-त्व- नवात् मौसू ३, २,
२०, ६, ५, ३८, १०, ३, ३१,
५, ३७, १२, ३, ९, ४, २८
शिक्ष-निवृत्त- अ शय ५
शिक्ष-प्रमाण्य- नवात् गौषौ
२८, १३ ६
शिक्ष-मश-प्रतिपिद्ध- अस्
काथी २५ ५, ११
शिक्ष-स्मृति-विरोध-दर्शन-
नात् गौष १, १, २४
शिक्षा(ह-अ)रस्य- ओ गौष
१२, २४
शिक्षा(ह-अ)क्रोप- ओ मौसू १,
३, ५
शिक्षा(ह-अ)गम- न्म गौष
१, १, ४
शिक्षागम विरोध-दर्शन-
नात् गौष २, १, २४
शिक्षा(ह-अ)करित- ओ पाठ २,
११, ६
शिक्षा(ह-अ)चार- न गौष ३,
३, २८, वाध १, ५, -रगू वैध ३,
२१ ५

शिक्षा(ह-अ)प्यारक- क गौष
९, ६९,
शिक्षा(ह-अ)भाव- ओ काथी
३, १०, २, काथी २४, ३, ५२,
मौसू ६, ३, ११
शिक्षा(ह-अ)विस्तारिक- क
चय्यू ३: १२,
शिक्षा(ह-अ)शिक्षा(ह-अ)मवि-
विद्य- वेपु पायदा २, ३
शिक्षा- पा ३, १, १०९, -स्य
कैथी २, ९, ९, कौष्ट ३, १०,
३५, छाट २, १७, ३, वैध २, ८
९, वाध, पावा ३, २, १३३,
-प्यम् गौषि ३, १, ५, वैध २, ६:
१७, ७ ७, ८ १०x४, कौसू,
-प्यस्य शय ३५०, श्रमा १५,
१३, १४, वैध ७, -प्या कौष्ट ३,
१२, १०, शय १३, ४९, गौष
४, ८, ८, गौष १५, १३, वृदे ३,
८३, श्रमा १५, ४, वैशि ६,
पावा ३, २, १२३, -प्याणाम्
गोष्ट ३, २, २, श्रमा १३, ४९,
पाणि ३०, याधि, -प्यात् गौषि
२, २, १२, कौसू १३९, १, १७,
१९, वाध ११, १८, गौष, -प्ये
शय ३४३ -प्येन वैध २, ९
११, विध ३०, ३२, -प्येभ्य
शय ३, २, २०, शय ३, ८, ११,
कौसू १३९, २०, अत्र
शिक्ष्य-क- क याधि १, ३८,
नाशि २, ८, ६^a
शिक्ष्य-कृत- तम् वैध २ ८
९
शिक्ष्य(ग>)क- न्मा वाध
२१, १०

शिक्ष्य-शिक्षि- -दि गौष २,
४९
शिक्ष्य-सत्वर->रिद- -रिण
गौष २, ३, ९
शिक्ष्य-सतीर्थ-समकचारि-
-रिपु गौष २, ५, ११६,
शिक्ष्यमाग- न्गानि मौसू ६, २,
२३,
शिक्षास- √गम् (शिक्षायाम्) द
शिक्षास- 'सत्- प्रमु √शास्त्र द
? शाहस- -र- अत्र ४८, ८८^f
√शि पापा सा उभ निशाने
शि- >शि लि सि वर्गमप्यम-प्यव-
दित- व दुप्रा ३, ९५
शिक्षाशपा- वावभो २, २, २१२, पाव
४, २, ८०^g, ३, १३९, १५०^h,
-पा काथी १२, १८, ७
शाशपा- पा ४, ३, १३९, १५०,
७, ३, १, -पेन अत्रा ३, ४, १^f
शाशपा- पा ४, २, ८०
शिक्षापा शय्या- न्वासु कौसू ३४ १
शिक्षापा- (>शाशपायन- पा)
पाठ ४, १, ९९
शिक्षाशुमार- र तैपा १६, ०५, -रा
अत्रा ३, ४, १, शय १३, २
शिक्ष्य पाव १, ४, ५७
शिक्ष्य- वाव ५, १६, कि ७६
-स्यम् काथी १६ १५, ७, ८^g,
कौषी, -क्यस्य गौषी २२, ४
२६, -क्यात् काथी १७, १, २१,
काथी १६, १२, ११, १५, ७,
गौषी १०, ११ १६, काथी,
-क्ये काथी १५, १०, १६,
काथी १६, १०, ८, कौषी
-क्येन वैश्री ११, ५ ५ -क्यसु

a) विध, नाप । b) वस । c) वस > वस । d) शक इति कालि । e) तप
<√गम् । f) पाठ १ सहस- (अत्र) इति शोध (दु सरहूँ डि) g) =श (वर्ष) । h) वैध १ द. ।
i) अर्थ. १ j) तु पाणव । k) अत्र ।

वीथी १०, ११ १०.
 शिक्ष्य च्छेदा(द-श्च)अ मज- ङेयु
 विष १०, १३.
 शिवय-जाल- रेन प्रायश्री १६,
 १६, १, वैश्री १८, १४ २.
 शिवय पाश- नाम् काश्री १६, ५,
 ६, भावश्री १६, १०, १०^५, १४,
 वीथी, -सा वीथी १०, १५:
 १०, -नाम् हिश्री ११, ३, ३८^०,
 -वे वीथी १०, ११ १८.
 शिक्ष्य-रचमपातो(श-द)ण्वाण(ण्त्व
 का)सन्दी- न्दी. काश्री १७, २,
 ३^०.
 शिक्ष्य-श्(व<)>वी- नयम् काश्री
 १६, ५, ५
 शिक्ष्या(क्य आ)सन्दी-रचमपाश-
 -नाम् वैताश्री २८, २०^०.
 शिक्षिक- न भावश्री ७, १, १, वीथी
 ७, ४ १, भाश्री ७, ७, ११,
 वैश्री, हिश्री ७, २, ४०^०,
 वैताश्री १०, ३, वीथ ८, १३,
 काय ३७, १, ३, अश १०, ६.
 शिक्षिक (= शिक्षक) भाषा भा
 वात्म विद्योपादाने, शिक्षित
 रूप ७८, १३^०, विष ३, २०^०, या
 २, १३, शिक्षिक, > छा श्वे ६,
 ४२, या १, ७, अमा ७, ३२, अमा,
 शिक्षितम् भाश्री ३, ७, १३^०,
 शिक्षित नाम ६, ४१, शिक्षितेभ
 भावश्री १६, ३४, ४, वैश्री १८,
 २१ ३२, हिश्री ११, ८, १५

शिक्षित श्वे ८, ४, या २, १०.
 शिक्षयाम् √कम् (मुनि),
 शिक्षयामास श्वे ३, ८४.
 शिक्षितमाल- नयम् भाश्री ७, ४,
 ६, काश्री ५, ६, ३; ६, १०, ११,
 भावश्री १०, ९, ३, वीथी.
 शिक्षि, शी)श्रा- नाम ७, २, ६१, ३,
 ७३, ४, ६२, -छा रूप १, १५,
 १, भावश २, ८, ११, विष २, १,
 ११३, नम् २-२३, २६, वैश्री,
 -छाम् शध ११६: ३६, पाशि
 १, माशि १५, ३४४, वीथी.
 शिक्ष- पा ७, ३, ७३; ४, ६२३
 -क्षेण नाशि १, ६, २२.
 शिक्षिक- का नाशि १, ८,
 ७
 शिक्षक- पा ७, २, ६१
 शिक्षा विहित- सा अमा १,
 २९.
 शिक्षित(व<)>ण- नाम् वाय २८,
 ६, वीथ २, २, ५८
 शिक्षिक- नम् माशि १५, १,
 -कस्य नाशि १, ६, १७, १०.
 शिक्षे(वय<)>ण्वा- नयम् वैताश्री
 ३७, २
 शिक्ष्य-द्वय माश्री २, ५, ३, १०.
 शिक्ष- शिक्षा(स-श्च)शिक्षिक-
 न्नी^० वीथी १७, १८: ४, वीथ
 ३, १०, ६.
 शिक्षण्ड- पाठ १, ३८, पाग ७, १,
 ४१

शिक्षण्डी- पा ७, १, ४१.
 शिक्षण्डम्- पाग ७, २, ७७^०,
 -ण्डन अश्रा ३, ४, ११, -ण्ड-
 नम्^० अश १, ३०, ४, अश्री ७, ४.
 शिक्षण्डी- नी वाशु
 ६, १३^०; -नी^० अश २, १,
 १०४, पाग १, ३६१, ५००.
 शिक्षण्ड- पावा ६, ४, १४४.
 शिक्षण्डन- पा ७, २, ७७,
 -नम् अश ३, १०: ११^०.
 शिक्षण्ड्या(शिक्ष-आ)स्य- स्ये
 नाशि १, ८.
 शिक्षर- पाठ २, ३, ३९, पाग २,
 ४, ३१; -रम् सु २, ३, -रे
 भाशि २, ६, ८: ३०^०, -रे:
 काश्री १७, २२, ९.
 शिक्षिता- पाठ ५, २४, पाग ७, १, ४५,
 ५६, २, ८०, ५, २, ११६; १३६,
 ३, १०८, पावा ५, २, ११६,
 -सा भावश्री ६, २०, २, वैश्री
 १३, १७ ३, काय ७ ३, अश
 ५८^०, २, ४, भावश १, १०, ८^०,
 हिष १, २, ३०^०, वैश्री ७,
 -सा भावश १६, ६, अश ५२,
 १३, २, -सा नाम् वीथी २३,
 ११: ३२, -साभि सु ८, ४,
 अश २७, ४, ३, ५२, ५, ४, -सा
 काय ७ ३, २, वीथ २, ४, १८,
 वैश ५, ५-१०^०, हिष २, ६,
 १०^०, अश ३६, १, २, -सा
 भावश्री १५, १५, १^०, वैश्री २,

०) परस्पर पामे । १) परस्पर पामे । २) वैश १ द । ३) शिक्ष्यः इति पाठ ३ मनि शोधा
 (तु भाषा प्रयु) । ४) वा दाने श्रुति । ५) भाषा हिच. भाशि पाठ । ६) भाष, नाम (शिक्षा-
 प्रय- एव पाशि प्रय) । ७) अ. प्र । ८) तद्विषयं ठक प्र उक्त. (पा ७, २, ६१) । ९) शिक्षक । उक्त प्र
 उक्त (पा ३ २, १५४) । १०) कस्य प्र । ११) शिक्षित-विशेष- । १२) सपा. तां २५, १५, ३ शिक्षितुस्त्वौ
 इति पामे । १३) वैश १ द । १४) अर्थ ? । १५) = छद- । १६) = वेदि विशेष- । १७) = अशरो-विशेष- ।
 १८) = साध-विशेष- । १९) सु = मयूर- । २०) शिक्षाम्, अश इत्यस्य स्वाने
 एषा भाशि २, २, ५ २२ शिक्षिताम् इति पामे । २१) सपा. एषा <> इति पामे ।

६.१०; आपथ १,१०,९, द्विप
१, २, ३८, -रायाम् आभिर
३, ४, २ : १३^०, वीषि ३, २,
१२^०; द्विपि ६ : ७^०, -रायै
भाभी १३, १५, २, द्विधौ २४,
६, ११^०, -ले आर १,७,१६.
शिक्षो- पा ४,१,४५.
शैक्ति- पा ५,३,१०८
शिक्षा-ज(डा)>र- र आभिर
१, १, ४ : ४६, माय १,२, ६;
वाय, वाय ७, ११, आपथ १,
२, ३२, द्विप २,१,६४.
शिक्षा बन्ध- अथम् अप ३६, २, ३.
शिक्षा-व^०व्यु- (> ल-व्यु-
रि- पा.) पाग ५,२,१३६.
शिक्षा-भू-वर्जम् वैद्य २,५, ९.
शिक्षा मा-र-जम् आभिर २,२,५
२२^०
शिक्षा-मुण्ड^०- गड वीथ २,६,२०
शिक्षा-र- पा ४,२,८०^०.
शिक्षा-यद्- पा ५,२,११६, १३६,
३,११८^०.
शैक्षान्त^०- ना: वीथीय ३ : ७
शैक्षावय- पा ५,३,११८.
शिक्षा-वर्गम् गोर ३,४, २३, जैग
१, १८ ६, द्राय ३, १, २१,
वाय २,२१.
शिक्षा-वल्- पा ४, २, ८९^१, ५, २,
११३

शिक्षा-सिन्- -सिचि कौसू २२,४.
शिक्षिद् (यत्रा.)^० - वा ५, २, ११६;
१३६, पावा ५,२, ११६, -रिन
काय ४७, ७, कायुष्ट ४४:
२१, वाय ४, १८, अप द३, ३,
६^१, -रिने वैद्य २, १२ : १४,
-रिम्यः अप ४६, ९, १५^१, -वी
व्यय १, २४, वैद्य २, ८ : ११,
अप ४०^१, २,४, वैद्य १, ३, ६,
गौष ३, २२, यत्रा १३, ५०^२,
मासि १३, ३^१, वासि १,
१८^१.
शिक्षि-संनिभ- -भा: अप ६३, १,
१३.
शिक्षा- (> शैक्षापनि- पा.) पाग
४,१,१५४^०.
शिक्षावत- ल अप ५२, ८, १.
शिक्षि^०- पाठमो २,१, १७, पाग ४,
३, १६४, -मुभिः कौसू २२,
२३^०, -मुम् अप २६, ५, ३,
अर्थो २०,५
शैक्षत्र-भा ४,३,१६४.
शिक्षु-भूस्तु- -थम् वैद्य ३, ५,
८^०.
शिक्षु-शकं^० ना. कौसू ३८,५
शिक्षु- (> शैक्षत्र- पा.) पाग २,
४, ६७, ४, १, १०४.
शिक्षु^० पापा. भा पर. गती.
शिक्षु^० पापा भा पर आभारे.

शिक्षाणा, न^० ज- पाठ ३, ८३^०, पाठमो
२, २, ३४.
शिक्षु^० शिक्षि^० -> आ(का-अ)
शुवा(धु-आ)अम्भ- अमे आपथ
१, १६, १४, द्विप १, ५, १३.
शिक्षि- पाठना ४, १११
शिक्षि^० पापा. भा. पर आभारे. अन्वये
शुद्धे, शिक्षे^० तु २२, ४, आभ
२, १, १६४^१. कर्षपा २, ९, ९,
१८.
शिक्षि^० - रे वाधु^० ४, ७५ - १.
शिक्षि^० पापा. भा. पर आभारे.
शिक्षि^० - शो द.
शिक्षाम् - म अप ४८, ११५^१,
निच ४, १^१, वा ४, ३^१, -मनि
वृत्ते २, ११४.
शिक्षाम्-तय^० () माथौ ५, २, ९,
५^१, मा ४, ३
शिक्षि^० - पाठ ४, १२२, कि ३३,
-सि: वा ४, ३^१, -ले वा ६,
२, १३८.
शिक्षि-क^० -> शैक्षि- >
शिक्षावालेय- पाग ६, २, ३७^१.
शिक्षि कण्ठ- श्चाम गीय २६, १२^१.
शिक्षि पद्- पद्भि. अप १४, १, १५^१.
शिक्षिपरी- पाग ५, ४, १३९,
-दीम् कौसू १४, २२, १६, २५
शिक्षि-वाद्^० - पाठ २, ११, ११^१,
अर्थो ९, १^१, -वाम् अप ३,

a) सभा वैद्य ५, ४ : ३५ चूडिकाव्याम् इति पामे. । b) पामे पृ २३९२ ए द्र । c) वस ।
d) पाठ पाठः । e) पामे पृ २३९२ ए द्र । f) मलो कम् (= शिक्षाव्यतिरिक्तमुण्ड (तु जन्त-)) ।
g) तु अप्ठ, शिक्ष- इति पागम. । h) व्यप । i) = मगर-विशेष- । j) = शिक्षा-ग्रन्त- ।
k) = अभि- । l) = मयूर- । m) संज्ञा-, शाला-, शिक्षा- > संज्ञावाल्शिक्ष- इति पाति ।
n) = वृक्ष-विशेष- । o) = शिक्षु-वीज- (तु अप्ठ) । p) शिक्षुम्, भूस्तुम् इति ० । q) पू. = शिक्षुपत्र-
इति दारिक । r) पाठमो पाठ । s) ज- इत्यपि श्लो द्र. । t) द्विप पाठ । u) = गान्धा-मल ।
v) शिन्ते इति पाठ ? मनि. शोधः (तु तजल- पषा) । w) वैप १ द्र । x) व्यप । वच. । y) आभ-
इति पाठ ? मनि शोध (तु एव प्रवृ) । z) पाठ ? पद्भिः इति शोध (तु. सभा. अप १४, १, १५ मंस्कृति
टि च) ।

२९^१
 शिति घृष्ट, घा^१ - घ आधौ ९, ४, ६,
 काशौ १५, ३, १६, ९, ५, आपधौ
 १८, ११, २३, वीथी १७, १८ :
 ३१^१, वाधी, वीथ ३, १०, ६^१ १^१,
 -घम् आपधौ २१, २३, १२,
 वीथी १०, ५७, १×४, दिधौ,
 -घ आपधौ २०, २२, ११,
 -घम् दिधौ ९, ६, १५, -घौ
 आपधौ २०, १३, १२, वीथी
 १५, २३ ७, २६ ८, दिधौ
 १४, ३, १४
 शिति-बाहु^१ - > हु शितिवाह-
 -र्यो काथी १५, ३, १६.
 शिति माल-वम् () या ४, ३
 शिन्वा(ति-अ)स^१ - स्ताप तैत्रा १६,
 २१^१
 शितिक^१ - अ अत्रा ३, ४, १^१
 षंशितिस्र- -अप्र हिष्ट २, ७, १^१
 शिष्टिर रा^१ - पाठ १, ५३, -रम्
 माथी ५, २, ७, १९, काथी ३,
 ३, १, ५७, -रंरा जैथी १३
 २, दाथी ३ १, २, जाथी १, ९,
 ३, -रंरं आपधौ १२, २०, ४,
 वीथी ७, १० ८, वैथी १५, २३
 १०, दिधौ ८ ५, ३३
 शिथिल ला^१ - पाठ १, ५३, -अ
 निम् ३ ८ ७, -रम् आपधौ
 १, ६, ९ वैथी ३, ५ १२,
 माथि ५५^१, -रम् दाथी
 १३, १, ६, लाथी ४, १, ६,
 -रानि निम् ३ ५ २१,
 -राम् आपधौ ४, ११२
 १, -के वैथ ३ १४ ३

शिविला(स च)ह^१ - आ अत्र ६८,
 १, १०.
 शिविलो(स-उ)क- का निष्ट ४,
 ६ १०, ९ २६.
 शिनि^१ - पाठभो २, १, २०९, २३६.
 शैन्व- -अम् आधौ १२, १२,
 २^१, आपधौ २४, ७, ९, १०,
 वीथी १९ ७^१, दिधौ २१,
 ३, १०^१, वैथ ४, ३, ३
 शिनि-वत् आपधौ २४, ७, ९, १०,
 वीथी १९ ८, ९, दिधौ २१,
 ३, १०^१, वैथ ४, ३, ३^१
 शिपचित्तुक^१ - का अत्रा ३, ४,
 १^१
 शिपि^१ - अत्र या ५ ८^१.
 शिपि विष्ट^१ - षंठ आधौ ३,
 १३, १४, ६, ७, ८, ९, ११,
 जाथी, -घ आथी २, १२, ५,
 ३, १३, १३, वीथी १५, ३७
 २, २७, १४ १९^१, आपधौ,
 आपध २, १७, २१^१, हिष्ट २,
 ५, ४^१, निष्ट ४, २^१, या
 १५, ७^१, ८^१, -घम् आपधौ
 ९, १९, १२^१, २०, २३, ६,
 वीथी १४, १४ २९, २६
 १६, वैथी २०, ३८ ३ दिधौ
 १४, ५ ४, -घर्य वीथी २८,
 २ ३५, -घाय शाथी ३, २,
 ७^१, १५ १४, ४, काथी २५,
 ४, ३८, आपधौ ५, २३, ६, १८,
 १५, ४, वीथी
 शिपिष्टि व(त् >)थी^१ - तीपु
 काथी २५, १३ ८, आपधौ
 १४, १८, १४^१, २५, १०, वीथी

शिविष्टि स्तोत्र^१ - अ वीथी २९,
 २०९
 षंशिस्र, प्रा^१ - अ माथी २, ३, ३,
 ३१^१, तैत्रा ४, ११, निष्ट ४,
 १, ३, या ४, १०^१, ६, १७^१
 षंशिस्र-वत् - वात् काथी १४,
 २३, ४, वीथी १०, २४ १०
 षंशिविन् - अविन् पाठ १, १८, ४,
 -थी आथी ६, ४, १०, शाथी
 १८, ७, ११.
 शिफा - पाठभो २, ३, २१८.
 शिवि^१ - दि वीथी १८, ४९ १,
 ३, अत्र २, १०, १७९, -विष्ट
 वीथी १८, ४९ ५
 शैन्व - पाठ ४, १, ७३, -व्य
 वीथी १८, १९ १४, ४८ ११
 शैथी - पा ४, १, ७३.
 शिविका^१ - (> शैथिक-)
 शिविन्त^१ - न्ताप हिष्ट २, १९, ६
 शिवि^१, विष्ट - पाठ १, ५३, पाठभो
 २, ३, ४७
 शिमि^१ - > षिन्-जावरी - षंठि
 आपधौ १५, १९, ९, वीथी ९,
 १८ २३, २५, माथी १३, २०, ५
 शिमिवास्तसि आश्रित १, ५, ५ १६
 शिमि^१ - मी निष्ट २, १^१, या ५,
 १२^१
 षंशिमो-वत् - वात् या १४, २५^१,
 -वत्तो आथी ६, ७, ९, या
 ११, ८, -वात् या ५, १२^१
 षंशिवात्^१ - न्ता अत्र ४८, ९४^१,
 निष्ट ३, ६.
 शिम्वि^१ - (> शिम्वि मत्- पा)
 पाठ ८, २, ९

d) वैथ १६ । b) सर्व विरोध । c) पाठ १ शिति सु-> ० सु इति शोध (हु सस्वर्णु टि) ।
 d) पाणे वैथ १ शिविधौ तै ३, २, ३ टि द । e) वत् । f) अत्र । g) अत्र । h) पाणे वैथ १ शिमि वै ६,
 १, ९ टि द । i) १२२५६ टि द । m) पाठभो पाठ । n) वैथ २, २३ द । o) षं-नाम । p) हु पाठ ।

शिरशिरा- > ✓शिरशिराय-
 शिरशिराफल- यत् माथी ३,
 २, ६^b.
 शिरशिर- पाठ ४, ११४, पाग ५,
 २, १=३, -र. आथी ५, ५,
 १२, १२, ५, ८, १४, १०×४,
 आथी, आपम २, ८, १^f,
 आपिण १, ३, ५: ४^f, भाग
 २, २२: ३^f, -र ५-र
 आपथी १६, १६, १, वैथी १८,
 १४ ९, -रस आपथी १५, १५,
 १, १६, ६, ३, १७, ८, ३, माथी,
 -रसा काथी १४, ५, १०, काथी
 १०, ९, ५^f, निर ६, ७. १४^f,
 १५^f, १७^f, १९^f, अण, बाध
 २५, १३^f, कौथ ४, १, २८^f,
 विध ५५ ९६, -रसाम् माथी ६,
 १, ५, २६, -रसि आथी ४,
 १४, २५ १५, ११, काथी,
 -रसी कौथी १०, ९: ३, आप
 १, ७, २०, -रसो माथी १, ७,
 ४, १३, -र सु बाथी १३ ३,
 २४, -रसि काथी १६, १, १८,
 ३०, आपथी १६, ७, १३, कौथी,
 -रोमि बाध २१, ६ ८
 शिर-कपाल- -रम् अण ३८१
 शिर-कनिप- मवी शैथि २०२,
 मासि २ ८२
 शिर-कर्म- कौथ ३६, १०,
 ४१, २०

शिर पाणि^b कौथ ३, ८, १६
 शिर-वीटा- -वा अण ३६, ८, १.
 शिर प्रभृति- -ति माथी ६, ६, ४
 शिर-प्रमाण, पा^f- -गाम् अण ३०^f,
 ३, २, -गे अण २२, २, ५
 शिरसि-यत्- पाग २, २, ३७^f.
 शिरस-वस () कौथी १५, २९ ३३,
 माथी २, १, ५, ४, पाण
 शिर-य-य- पा ८, ३, ४७
 शिरस्य- पा ५, ३, १=३, पावा ६,
 १, ६१
 शिर-मुखा- -खेन मासि ४, ६
 शिर-रथ- -रथम् वैण ५, ५ ७
 शिर-रथान- -ने वैथी १८, ३ ९,
 आपिण २, १, ४: २३, वैण ५,
 ४-३०, ३६
 शिर-र, र-रना- -रौ कौथ १, १७,
 २, चाण १, २५, ३
 शिर-गत- -तम् मासि ४, ६
 शिर-प्रथि- -थि अण २२, ३,
 ३
 शिर-प्रह- -हम् कौथ ८७, ११
 शिर-जल- पाग २, २, ३१
 शिर-र(म् अ)धिष्ठान- -पनीन- नम्
 अण ६४, ५, ९
 शिर-निष्ठाप- -पम् माथी १ ७,
 ५, १८, -पस्य माथी १, ७, ५,
 २९
 शिर-र(म् अ)प्य- -पम् विह ६
 ३२

शिर-वीन- पाग २, २, ११
 शिर-मह- -मे अण १२, १, १२
 शिर-माग- -गे वैण ३, १४ ९,
 शिर-माहा- -वा अण ७०^f, ५, २
 शिर-र(म् अ)मि- -मिम् माण २,
 १, १०^f.
 शिर-मुण्ड- -ण्डम् आपिण २, ७,
 १: ९
 शिर-यु(त)ज- -जाम् अण
 ४२, १, ९.
 शिर-वृ कौथ २१ ७, मीम् ६, ६, २.
 शिर-विह- पाग २, २, ३१
 शिर-वृदि- -दिम् अण ६८, २, ७
 शिर-वृव- -वृम् अण ४६, १, ७,
 -रौ बाध २६ १२
 शिर-र(म् अ)धिसि- पा) पाग ४,
 १, ९६
 शिर- पाग ४, २, ८०^f, -राम्
 अण ११६ २२
 शिर-क- पा ४, २, ८०
 शिरा-वत- -वामि विध २६ ८०
 शिरि- ✓भू (हिंसायाम्) द
 शिरिणा- -या अण ४८, ७४, निध
 १, ७
 शिरिदिठ- -ठ निध ४, ३^f, कस
 २, १०, १५५^f, सुळ ४, ५७^f,
 अण २०, १३७^f, वा ६, ३०^f,
 -ठस्य वा ६, ३०^f
 शिरिशिरा- > पा ✓भू, शिरि-
 शिराभववि^b आपथी १, ६, १०,

a) चन्द्रावृत्ति-। b) पागे वृ २३७६ k द । c) वैप १ द । d) सपा दिण १, ११, ४
 शुभम् इति पागे । e) सपा पाठ ३८, १३ शिर इति पागे । f) = साम विरोध-। g) = मन्-विरोध-
 [आगे उच्यते (तैत्ति १०, १५, १ इह मित्ताशरा १ २३, Jolly टि च १)] । h) अजुनाक प्रतीक- (तैत्ति १०, ५३,
 १) । i) वष । j) तु पागम । k) शिर पाठ । l) = शीवा-। m) पूष = १३४ (तु आपथी ८,
 १०, ७, ११, १९) । n) = शिरविद्वान्- इति Kp । सप < ✓अम् [रोगे] इति । o) सपा शी १२, २, २०
 शिरिदिठम् इति, काण ४५, ७ शिरिदिठ इति च पागे । p) वष = सुएकन । q) = म-न विरोध । r) तु
 पासि पागम, वष = शीवा वा रश्मि-केति पागम । s) = [आधर्षण] । त्रत विरोध-। t) वष ।
 u) = नाडी । v) अर्थ ३ । w) वृ २३७५ k द ।

शैवी २०, ११:७, शिखी १५,
२, १९
शिरी-(> शिरी पत्री- पा) पाप छ,
१, ३५
शिशिरिप- पाठ छ, २७, पा, पाप छ,
२, ८२, पाप छ, २, ८०^{१०}, ३,
१३९, १५०^८, ५, २, १३५,
-यम् गोष्ट ३, ९, ४, -पस्य
अप १, ४३, १
शैरीप- पा छ, ३, १३९, १५०
शैरीपक- पा छ, २, ८०^१
शिरीपक- शै- आश्रित २, ५,
१२ ५
शिरीपा(प अ)ह-म(व>)शो-
धीम् अप ३६ ७, ३
शिरोपा(प आ)अ-कवित्य- स्थानम्
अप ५, २ २
शिरीपिक- पा छ, २, ८०
शिरीपि(न>)शो-पा ५, २, १३५
शिरीपो(प-उ)दुम्बर कुशावरुव
यदरी- शीनाम् शीष्ट छ, १७,
३
शिशिरिप- > शैरीप- प साय
२ ३०१
शैरीपि- पि अथ २ १० १४७
शिरीपि- पय शीश्रीप्र ३० २
✓शिल् पाका तुदा पर उज्जे
शिला- न्यम् वाण २ २०
शिशि सिजो(ल उ)म्ब- न्य
थापय २ १० ४^८, द्विप २ ४, ४,
-व्हेन आपय २ २२, १० निष

३, १७^{१०}, द्विप २, ५, १४०.
शिलो(ल-उ)म्ब- > लोम्ब-
पद- न्यो दाय १२
शिला- न्या अप ७०^२, २३, १२,
अथ १२, ११, -हाम् शीश्री
१८, ४७ ६, गोष्ट छ, २, २७,
-हाम् वैष्ट ३, २३ ५,
-हाम् आष्ट २, ९, ३, विष छ ३,
३८
शैल- लानाम् शय १६४,
माशि १६, १२, याशि २, १०६,
-लेन्य माष्ट २ १२, १७
शैल-मुद्द- ह आश्रित २,
७, १० ९^२
शैल-मौम- न्यम् शय
११६. ३
शैल-मय- न्याम् अप २०
७, ८
शैल-वर्ष- न्यम् अप ७०^१,
११, २५
शैल्य- पा ५ ३, १०२
शिला-नात- यम् विष २२, ४३
शिला(ला वा)दि- दि विष १०,
५
शिला नाम- ले अथ ३, ९, ११
शिला निपात- त अप ७०^१,
११, १९
शिला फलक नौ पान- नेम्य
विष २८ २८
शिला मय- येन आश्रित २, ४,
१० १३

शिल्प- पा ५, ३, १०२
शिलो(ला-उ)म्ब- यम् वैष्ट ५
३ ५, -या पाप २२, १२,
गोष्ट ३, १०, १३, गोष्ट १२,
१५, -यानाम् अप ७०^१, ११,
१९
शिलाशाला- एा अथा ३, ४,
११
शिलाशिल्प- > शैलाल- पावा ६,
४, १४४
शैलालि- एव शीश्रीप्र २४
१, छ ७ २
शैलालिन्- पा छ, ३, ११०
शैलालि माह्व- न्यम् आश्री
६, ४, ७
शिला, शी' लिफ- (> शैलिक्य- पा)
पाप ५, १, १२८
शिलिन्- > शैलिन्- न मुम छ,
१९०
शिलिशिला- > लो, न्य शिलि
शिलामवति माथी ९ ८, ८^८
शिल्लूप- > शैल्ल- पाग छ, २, ५३^२,
-प साका ६, ४, २६^८
शैल्लव- पा छ, २, ५३
शैल्ल-वा तुवाय कृष्ण रत्न-
-कानाम् विष ५१, १३
शैल्लि- -पि अथ २, १०, १२६
शिल्पु- न्यु निष ३ ६^{११}
शिल्प- पाठ ३, २८ -न्यम् आश्री
२, ५ ११, शीश्री १, १२ १६^१,
१०, ५७ ९ १६, ३ १५×५,

a) = दृश विशेष । b) अर्थे । c) तु पागम । d) व्यप । e) = [क्षेत्र प्रतीति] मधुरीमय
पा-बोधवन्- (इति शिल्प) । f) एष = ० इति संकेतित पाण्य, उप भाष । g) शिल्लो इति पाठ । h) शी'
इति पाठ ३ यनि शीष्ट (तु जीम) । i) इम । j) मज्जो कस उप = वृत्ति (तु निवापरल्लकर [१६६]) ।
k) वैष्ट १३ । l) = पर्वत-। नलथे प्र (पा ५ २, ११४ (तु अगा)) । m) = धानप्रत्य । उप < √ तुष्ट,
एव रत्नै प्र । n) तथा विष ९५ १४ अयमकुष्ट इति पाठे । o) = पाताल विक्षप- । p) = पर्वत । वस
(तु शक) । q) = शिला (तु वैष्ट १) । r) पाका पाठ । s) अर्थे न्यु च २ । t) वैष्ट २ ३४ द ।
u) पाठ तु २३७६ इ ३ । v) = नट । w) = मुस । x) धर्म- इति [पथे] ३ ।

१८, १९ १^०, २०, १० १६^०,
 बाधौ १, ३, २, १८^०, वैश्री
 ५, ३ १^०, हिम्री १, ७,
 १४^०, फण ४८, ६१^०, ६४^०,
 फणिय २, १^०, ३, ७^०, -रुपावाम्
 शाश्री १२, १, ४, ५, वीश्री २३,
 ११ : २०, १३ १३, -रुगानि
 आश्री ८, २, २, ४, ७, ९, १०,
 ११, शाश्री १२, ३, १५^०,
 आपश्री २३, १७, ७, वीश्री,
 -नूवे आपश्री १०, ८, १६, वीश्री
 ६, ५ ३, भाश्री, -रुवै वीश्री
 २३, १० - ३, ४^०, हिम्री ३, २,
 ६३^०, ६, ५, ८

शिल्प शोविन्- विवाम् हिम १, ५,
 ८^०

शिल्प योनि-वमम् आधौ ९, ११,
 २

शिल्प-वद-वम् वीश्री ६, १८ २,
 २५, १३ : १, -वन्त. वीश्री
 १७, ९ : १८, -वन्त निम् २,
 १३ १३

शिल्प-वृत्ति-चित्तौ गौध १०, ५९,
 -सौ बाध १९, ३०

शिल्पा(ल-आ)वीय-वानाम्
 आपध १, १८, १८^०

शिल्पिन-पाग ६, २, ८५, -स्विन
 शध २४८, २६२, विध ३ ३२,

गौध १०, ३०, -स्विनि पा ३,
 १, १४५, २, ५५xx, -स्विमि
 अप २३, ५, २, -स्विम्य कायु
 ७, ६
 शिल्पि-क्षम-व्याय अप ७०^०,
 ८, १.

शिल्पो(ल-उ)पकरण-गानि गध
 २६२

शिल्प, वा (वप्रा.)^१- पाठ १, १५३,
 पाग^० ४, १, ६८, ११०, ११२,
 -नूव आधौ ७, १०, ५, शाश्री
 १०, ४, ५, १३, ६, २, -व
 नूवाश्री ७, १०, ९, ९, २७, ७,
 शाश्री, माश्री १, ६, ४, २५^०,
 वाश्री १, ५, ५, ८^०, हिम १, ९,
 ७^०, कौम् ७४, १९^०, अप ४०,
 ४, ४^०, -वम् नूवाश्री २, ५,
 १७xx, शाश्री, सु १६, २,
 आप २, ४, १४^०, नूवाश्री ३, ३,
 ६^०, ४, ६, ८, आश्री २, ३,
 ३ १५, १६, २८, माग २,
 ८, १^०, वैश्री १, ७ ३, ४, अप
 ४०, २, ३, ४८, ६४^०, ७०^०, १३,
 ३, १७, २, ७२, ६, ६^०, आपध
 २, ४, २३, ५, ३, हिम २, १,
 ७६, ८३, गौध २०, ११^०, निग
 ३, ६^०, या १०, १०^०, -नूवम्
 ५ वम् वीश्री ३, ३, ६, शाश्री ३, ५

१, आश्री २, ५, २ १४, वीश्री
 ३, ६, ७, -ववा आपध १, २,
 ५^०, -नूवा आश्री ४, १२, २, ८,
 १४, १८, आपश्री, वीश्री^० १७,
 २१ ६, ३६ ११, १२, ४
 ५, आश्री १, ५, १ १०, वीश्री
 १, १६ - ७^०, माग १, २२,
 १०^०, वाग ५, ७^०, अप १८, १,
 ७, अप ७, ६८^०, श्या २, ४०,
 -नूवा आपश्री ४, ६, १, ५,
 २, १xx, १८, १९, ६, ३०,
 १०^०, १०, १२, ४xx, वीश्री ३,
 १२ ९^०, भाश्री ६, १७, १७^०, १०,
 १०, १५^०, माश्री १, ६, ४, २६^०,
 वाश्री १ ५, ५, ८^०, वैश्री १२,
 १३ ४^०, हिम्री ६, ८, १^०, १०,
 २, ५८^०, आपध १, ७, ८^०, २,
 १४, ११, १४, आप २, ४, १४^०,
 पाग ३, १, ४^०, ३, २, १२^०, वीश्री
 १, २, ४८^०, माग २, ८, १^०, वैश्री
 १, ७ ४९, वैश्री १, २४ ९^०, आपध
 ४३, ३, १२, ५८, १, ७, -वा
 नूवाश्री १, ६, ७, १३, -नूवा
 आश्री ३, ६, १, २५^०, काश्री^०
 २६, १२, ४५, १२, वीश्री १,
 १ २^०, कौम् १३२५, १^०, आपध
 २, ६^०, अप १६, १, -नूवानि
 काश्री ४ १५, वैश्री १, ७ ५९,

- a) पामे वैश्री १ शिल्पम् कठ ३७, ९ टि द । b) स्या वेमा ३, ७, ६, १९ लील इति पामे ।
 c) कर्म-नाम-र- । d) = सुख । e) ह्य-नाम-द । f) नाप (शिल्पाप-नूव) । g) = वाञ्छित्वादि-नूव-
 (दु भाष्यम्, आश्री २, ४, ८ व) । h) सत्र. आपश्री ५, ८, २ वीणातृणवेन इति, भाश्री ५ ४, २ वीणातृणवै
 इति च पामे । i) सत्र शिल्पवीधिनाम् <> शिल्पाजीवानाम् इति पामे । j) उप क्तरि <आ/वीव ।
 k) उप <वृक्षि (क्षये) । l) वैश्री १ द । m) व्यप । n) पामे वैश्री १ शम् तै ७, ७, २, ५ टि द ।
 o) पामे वैश्री १ शान्तुम् वी १२, ९, १ टि द । p) पामे वैश्री १, १७xx ० द । q) पामे वैश्री २,
 ३ख स्वस मत्रा १, ६, २० टि द । r) पामे वैश्री १ शान्ता वी १२, ९, १^० टि द । s) पामे
 वैश्री १ शिवा मे १, ३, ३^० द । t) पामे वैश्री १ स्वोला वी १४, २, ९ टि द । u) एकतर पामे वैश्री २,
 ३ख शिवा तेसा १, ९ ७ टि द । v) शत्रु स्या वीश्री ४, ४, १० शी ४, १८, ४ २सुवर्षा- > वां. इति पामे,
 अन्यत्र वृ २३७१ इ द । w) पामे वैश्री १ शिवाम् क १०, ५३, ८ टि द ।

कौत् २२४, ५, अथ २, २६, १,
 ३, ६४, ९, २४, -वाभि शोथी
 ७, १०, ९, १, वैश्री २, १४ १०^०,
 १४^०, हिथी ६, ५, १५^०, १२,
 ६, ६, -नैवाम् आपथी १०,
 ६, ६, हिथी १०, १, ३८, माण २,
 ७, ४^०, हिण १, १७, १, अथ १,
 ४१, ६, ४, ३, ५४, अथ ११,
 ६, -वाय नैवाम् २, २, २, ४, ८,
 १५, हिण १, १६, ६^०, अथ ३७,
 १, १, -वाय कौत् ३२, ९,
 -नैवे आपथी ५, १५ २^०, १३,
 २५, ३, शोथी, आपथ २, १२,
 ९^०, आमिण २, १, ४ ९^०, हिण २,
 ३, १०^०, अथ ६५, १, २४, -नैवे
 अथ ३६, १, ४, १३, -चिन
 काथी ३, ९, ५^०, शोथी ४, ११,
 ६, ८, ११, १४, आपथी ४, १२,
 १०^०, १२ ३, ४^०, आथी ४, २०,
 १^०, हिथी ६, ४, ३२^०, १३, ८,
 २८^०, आपथ २, २२, १३^०,
 -नैवी कौत् ५८, १९, १०८, ३,
 अथ २, ७, अथ १, ४१, ३,
 ५७४, अथ ११, ३-५, ७
 नैव-पा ४, १, ११२, -वा
 शोथी २७ २
 शैवो(व-ठ)क- -केतु
 आमिण २, ५, ६ २८
 शैवायन-पा ४ १, ९८, ११०
 शैवायन-पा ४, १, ११३
 शिव-कथ- -म्यम् नाशि २, २, ४
 शिव गु- > शैवगव- व शोथी ३

२३ १
 शिव तम, मा- -म सुपा २, २०,
 -म. हिथी १५ ५, ४, वैश्री १२ १
 ३, आपथ २, ७, १४, -मा
 पाण १, ८, ५, अथ १, २६, ६,
 -माम् आपथ १, ११, ६, पाण
 १, ४, १६, आमिण
 शिव-नाति- पा ४, ४, १४३, १४४
 शिव-यथ- > शैवपथि- -यथ
 शोथी ३ ४२: ३
 शिव-वैश्रवण- पाण २, ४, १४
 शिव-संकल्प- -व्य सुम ४, १९,
 -व्यम् वाथ २६ ६
 शिवा(र प्र)मिण कृत्तिका- -नानाम्
 अथ २०, ५, १
 शिवा(व >)घा- -वा अथ ७०^०, ६,
 १, ११, ३०, -वा अथ ७०^०, ११,
 २२^०, -वाताम् कौत् १२७, ३,
 -वाभि अथ ७०^०, ७, ४, -वाम्
 पाण ३, १५ १८
 शिवा-विराव- -वे शोथ १, ११, ३४
 शिवो(व-ठ)क-हय-माय- -हा
 अथ ७०^०, ११, ५
 शिवाकु- पाठ २ १, ४१, पाण ४,
 १, १६
 शैवाकवि- पा ४, १, १६
 शिविर- शिविर- ३
 शिशान- ✓शो ३
 शिशिर- पाठ १, ५३, पाण ४, २,
 ६३^०, -र शोथी २, १, ५ आपथी
 ५ ३, २०, शोथी, -रम् आथी
 १, ५, १ १, शोथी १, ४, १, २,

या १, १० नैव, -रथ शोथी १८
 ५२, ५, -रा अथ ६८, १, ४४^०,
 -राय आपथी २०, १४, ५^०,
 -रे शोथी १६, ९, ३२; आपथी
 २१, ३, ८-१०, शोथी, -रेण
 शोथ ४, १२, २.
 शिशिर- -र शोथी ४, १२, १,
 -रा. आपथी २०, २३, ११, शोथी
 १५, ३८ १३, -राय शोथी ९,
 २७, ११, -शै आपथ २, १२,
 अथ १५, ४^०
 शैशिक- पा ४, २, ६३,
 -कानि शोथ २, १०, ७
 शिशिर प्रा(व >)घा- -वा अथ
 ६८, १, ३०
 शिशिर शिव- -वा अथ ६८, १,
 १०
 शिशिरा(र-जा)दि- -शै शोथ २,
 १०, ७
 शिशिर- > शैशिर- -र शैशि
 ५, ९, -रथ शैशि ७
 शैशिर- पाण ४ २, १३८, -रथ
 आथी १२, १३, २, आपथी २४,
 ७, ३, हिथी २१, ३, १०
 शैशिरिय, वा- पा ४, २, १३८,
 -वायाम् अथ ३, ९^०, -वे अथ
 ३, ३६
 शैशिरिय- वा शोथी ३ ३५ २
 शैशिक- ✓शो ३
 शैशिक- पाठ १, २०, -नैव शोथी
 १ १४ ११, ४, निम्, वा
 १०, ३१, ६, -सुम् आपथी २०,

a) = मन्त्र विषय (तेवा १, १, ५, २ प्रथ) । b) सवा शो ६, १२४, १ सुमेन इति आपथ २, २२ १३
 शिवन इति व पथि । c) पथि वैप १ २२८ ३ ७ इ । d) पथि वैप १, १२७ १ इ । e) पथि वैप १
 शिवे मा २ १३ टि इ । f) मलो कर । g) अथ । h) = मन्त्र- (वा ३४, १ ६) । २) = श्रुवाली- ।
 १) उत्तरेण सपिथार्य । k) वैप १ इ । l) = [शिशिर-सहचरित] प्रथ विरोध- । m) विव ।
 नदीति शोथ । n) नस पू = शैतल-कल- । o) प्रोस्तार्थे प्र । p) अथ-वार्थे एक प्र उस
 (पा ४ १, १२३) ।

२, १११; वाधुधौ ४, ८९ : २९;
 हिथौ १४, १, २३; आभिय २,
 २, ३ : ३; वृदे ५, १६; साम;
 -अ आपधौ २०, २, १११;
 हिथौ १४, १, २३; -अरु वध
 १, १०, २; -अरु वध ६५,
 २, ५; -शोः भाधौ ४, १३, ७१;
 भाधौ ११, ८, ७१; विध १, २६;
 -शौ वीध १, २, ४८; वाध १२,
 ३०.
 शिशु-कुमार- नौ वाधुधौ ३, ८६ :
 ५.
 शिशु-कृच्छ्र- कृच्छ्र वाध २३,
 ४३.
 शिशु-कन्द-> नदीय- वा ४, ३,
 ८८.
 शिशु-चान्द्रायण- नः विध ४७,
 ८; -णम् वीध ४, ५, १८.
 शिशुपाल- नः वीधौ २७ :
 ५.
 शिशु-म(तु >) लो- नः लार्थौ
 ७, ५, १६.
 शिशु-भार- फि ६४; -रः शंघ
 ३७८; -राः अय ६२, ३, २;
 -रेण वाध ५२, १०, ४०.
 शिशुमार-क- नः अय ३९,
 १, ३०.
 शिशु-भ- अः अय २, ९, ११२;
 वृदे ६, १३९.
 शैतव- अम् अय ३, ११ : ९;
 -वय अय ३, १० : १३.
 शिशु-भवा-द- दः अय ३, ५ : ९.
 शिशु-दीश-व-वयोः वाज ३८ : ३.
 शिशु-पात्र- पात्रो २, २, १८४; -अम्
 आपधौ ९, ११, २३; वाधुधौ

४, ७८ : ५; आभिय; -भाः वा
 ४, ६११; -भात् वाधौ १, १,
 १७; वीध २, १, ३२१; -भानि
 वा ४, ६; -भे शौधौ ४, १५,
 १७; वाधौ.
 शिवन-च्छेद- नम् आपध २,
 २६, २०; हिध २, ५, २१५.
 शिवन-देव- नः वा ४, १११.
 शिवन-प्रवेज(न >) मी- ननि
 शौधौ ११, ३, १०; लार्थौ ४,
 ३, ११.
 शिवन-सूय- नौ शंघ ३८५.
 शिवो(स-उ)वर-पाणि-पाद-वाक्-
 चक्षुस्-चासल- कानि गोप
 ९, ५०.
 शिख्यान- शौ ध.
 शिश्रियाण- श्रि (सिवायाम्) द.
 शिभिवदान- पाठ २, ९२.
 शिश्रिपाषाण- नः प. हितायाम्;
 ल्वा. प. विशेष्ये; चुट. उ. म.
 मसर्वोपयोगे, शिष्ये वेधौ १,
 ५ : ४; अय ३४, १, २; ४७, १,
 ११; अय; शिष्ये वेधौ ६,
 ३, ६; वा २, १; शिष्यन्ते लार्थौ
 ९, ६, १३; शिष्ये वीधौ २२,
 ४ : ४.
 शिश्रिपाषाण- आपधौ १५, ९, ७;
 वीधौ ९, १ : १२; भाधौ ११,
 ९, ९; वीधौ १३, ११ : ११; हिथौ
 २४, ४, ३.
 शिलपि आपधौ ११, १३, ९;
 वीधौ १४, ७ : ८; १५ : ११;
 वीध १, ३, २६.
 शिखर, ला- अम् आपधौ १, १३, ५;
 २, १६, ५; आपधौ; -अया

आधौ ५, १२, ११; वीधौ १३,
 ४ : ७; ६ : १०; -अरु अय
 ३, ९, ८; -अ वीधौ १२, ४ :
 ५; ३३, १२ : ११; -अः
 काश्रीसं ६ : १; ५१; भाधौ;
 -अरु वाधौ २, १, ५, १२;
 वीधौ २, ५ : ९; काय; -अनि
 वाधौ २, २, ४, ३; वीधौ २६ :
 ३; वृदे; -अभिः वीध ३, १६ :
 १३; अय २, १०, ५९; -अ
 आपधौ ६, ४, ३; ८, १, २३;
 भाधौ ९, ५, १३; आपधौ; मीस्
 ११, ३, १३; १४; -अन आपधौ
 २, १६, ६; ३, १४, २; मीस् ३, ७,
 १४; -अम्पः वीधौ ३३, ६ : ७;
 -अः वीध ४, २ : ८; शंघ ३५२.
 शिष्या आपधौ २, ३, २० x x; शौधौ.
 शिष्य, पा(वरा.)- पाठ ३, १,
 १३ x x; पाठय ४, ३, ६० x x;
 -अः आपधौ १, ५, १८; १२,
 २ x x x; शौधौ; मीस् ३, ८, ३२ x;
 -अम् आपधौ १, ११, १०; ५, ९,
 ३; काश्री; हिप २, ५, ४ x x; वाधु
 ३, २, ३; वाधु २, १५ x १३, २;
 वीधु २ : १०; १२ x x; हिथ १,
 ३६; ४, १४; वेधो २६; ४०;
 मीस् १०, ७, १६; -अम्प-अम्
 काश्री २, ९, १८; ११, २२; १२,
 ३, १५; -अम्प शौधौ ७, ३, १;
 ४, १७; काश्री; आपध २, १७,
 १६ x x; -याः आपधौ १३, १७, ८;
 वीधौ १२, १ : १८; हिथौ १०,
 ४, ४३; कय; -अणाम् अय
 ५, ५, ५; वीध २, ९, १३; विप
 ७५, ७; मीस् ७, १, १ x x;

a) = अय-अ. b) अय. c) = अय- (उ. मा २१, २३ तं १२, ४, १५)। d) वीध १ द.।
 e) = अय-विशेष. f) शौधौ द.। g) = अय-विशेष. h) मीस् इति अय.। i) वा १०, १७ पराण्डा
 द.। j) पाठे. वीध १, १६१९ ४ द.। k) उ. पाठय.। l) वेधे इति जीवे. अय.। m) पराणं पाठे.।

-पाणि वैश्री १०, १८: ११××;
 वासिष् २, ७, ९: १; भाष्;
 -पात् कश्चि ६, १०, ३२;
 आप्तौ १०, १५, १६; १५,
 ११, ९; वैश्री: -पात् काशी १५,
 ६, १०; १२; १२, ४, १३××;
 आप्तौ: -पे शाशी ३, २०,
 ७; काशी १७, १, १६; १८,
 ५, ६××; आप्तौ: वासिष्
 ३, ४, ४: २०^०; -वेण काशी
 ३, ११, १२; शाशी ४, २, ८;
 काशी: -वेभ्य: वासिष् २, ५,
 ४: १७; संप २७७; -वेपु
 आप्तौ १२, २६, १०; औश्री २:
 ६; वैशाशी ४०, १४; कप; पात्
 २, २, ३४^०; -पै: काशी १२, ४,
 १४; माशी ५, २, १२, ३१;
 आप्तौ ९, १०, -वै काशी ९,
 १३, २०; १०, ४, १२; आप्तौ
 ८, ७, १०.
 शैपिक- पावा ४, ३, ६०.
 शैपिक-निवृत्त(शि-अ)पं-
 -र्यम् पावा ४, ३, १३२.
 शेष-कर्मन्- -सौ मीस् ६, ७,
 ११; १०, ७, ४७.
 शेष-कारिन्- -री मीस् ३, ७,
 १९.
 शेष-किया- -नापात् वीप १,
 ५, ११२.
 शेष-त्व- -त्वम् मीस् ३, ७, २१;
 -आत् पावा १, ४, १०-८; मीस्
 १०, ४, १५; ५, ७३××.
 शेष-दशैन्- -नात् मीस् ३, ४,
 ४१.

शेष-प्रतिषेध- -व: मीस् ९, ४,
 ४९; १०, ७, ४४; ४८.
 शेष-असङ्ग- -श: पावा ७, ४,
 ६०.
 शेष-माशन^०- -नम् काशी ६,
 १०, २७.
 शेष-मासन- -नम् काशी १६,
 १, २२.
 शेष-भक्ष- -श: मीस् ६, ४, ४;
 -श: मीस् १०, २, ३८; १२, १,
 ३१; ३३.
 शेष-भान्- -भाजाम् मीस् ६,
 ४, ३.
 शेष-माव- -वा: मीस् ३, २, १;
 ९, १, ३६; -वात् काशी १, ६, ५;
 ५, ६, २७.
 शेष-भुज^०- -भुक् विप ६७,
 ४२; संप १३०.
 शेष-भूत- -नानि शाशी ६, १, ८.
 शेषभूत-त्व- -व्यात् मीस् २,
 १, १२; १०, १, ११; २३.
 शेषभूत-संस्कार-स्व- -व्यात्
 मीस् ३, २, १९^१.
 शेष-भोविन्- -जी आप्त २, ८,
 २; दिव २, १, १०३.
 शेष-भन्त्र- -भ्रेषु औश्रीका
 १४५.
 शेष-लक्षण- -णाम् मीस् ३, १, १.
 शेष-वचन- -नम् पावा १, ३,
 १२^१; ७८××; मीस् ३, ५,
 १५; -नात् पावा १, ४, १^०; -ने
 पावा २, २, २४.
 शेष-वत् मीस् ११, १, २; १२,
 १, २५.

शेष-यत्- -यति शाशी ३, २०,
 १५.
 शेष-विज्ञान- -नात् पावा २, ३,
 ६७.
 शेष-विधि- -धे: काशी ९, ६,
 २३.
 शेष-विस्वारा(र-भा)गत^०-
 -नम् वैशी ११, ८: १९.
 शेष-संनिपात- -नात् मीस् ४,
 १, ३०.
 शेष-होम- -सयो: मीस् ८, ४,
 २६.
 शेषा(प-ब)क्षर- -राणि वाशि
 २, ७.
 शेषा(प-ब)स-ओमिन्- -जी
 काप २७०: ४.
 शेषा(प-अ)भाय- -वे शाशी ३,
 २०, ८.
 शेषा(प-अ)भिमर्शन- -नम्
 काशी २, ३, २३.
 शेषा(प-आ)म्नात- -नम् मीस्
 ५, २, १७.
 शेष(प-ए)कदेश- -शाम् काशी
 ९, ४, ३६.
 †शेषत्- -या: विप २, २; वा ३,
 २४.
 शशिष्ट- प्रम्. ✓शास् द.
 रशिष्ट- ✓शिप् द.
 शिष्य- पाठना ३, २८.
 शशिष्य- ✓शास् द.
 रशिष्य-(>शैष्यक- पा.) पाग ४,
 २, १२७^१.
 शिष्यमाण- ✓शास् द.
 ✓शी^१ पावा. अदा. आत्म. स्वजे.

a) सदा. वीपि ३, ४, २१ अत्रेवे इति पाठे. 1 b) केवे इति पाठः. पाणि. (पा २, २, ३३) ।
 c) प्लवस्य इति जीषं. प्रयासं. 1 d) उप. <प्र✓षत् (मोज्जे) । e) उप. <✓सुत् (मोज्जे) ।
 f) ककार इति जीषं. प्रयासं. 1 g) विप. (चमस-)। पू. अर्थः ? । h) वैप १ द. 1 i) तु. पावा. 1
 पाप- (यद.) इति भाण्डा. प्रम्. 1 j) पा १, २, १९; ३, २, १५; ४, १, ६; ४, २१; २२ परामुष्टः द. 1

शयते या ६, १७†; शयत्यम्
वाधुश्री ४, १०३: १; आशित्
३, ७, ३: १८; शोषि २, ३, १.
शेले शाश्री ३, १३, ३०; १५, १९,
१†; काश्री; शयते वीथी १८,
५०: २५; शी १, ५, १५; २७;
शेले शाश्री १५, १९, १९†;
वीथी १२, ८: ४; शैथी ९, ५:
४; श्यामं; वा १४, १०!†, †शये
वीथी ६, ७: १; ३†; ४; माण २,
१८, २; वा ११, ४८†; शयान्ते
पावा ७, १, ३; शेलाम् काश्री ६,
५, २२†; शयान्ते जैण १, २२:
१२; †शयान्ते आपश्री २०,
१८, १; हिथी १४, ४, ८; शशील
आश्री २, १६, २७; ६, १०, २८;
काश्री १६, १, ८; श्याश्री; शशी-
पाशाम् काण १, १७, ६; पाण १,
८, २१; शोण १, ६, ५) २, ३, १५;
श्राण १, ४, ९†; आपश २, १, ८;
हिथ २, १, ८; शशीरम् पाण ३,
२, १६; कौम् ६७, १२; वाथ १२,
२४†.
शिशिरे वीथी १८, १३: ९.
शायशील वैण ४, १०: २२; ५,
२: ५.
शाय- पा ६, ३, १८; -यम् शशि
१, ४, ३; -या: माश्री २, ३, १,
२०; हिथी ७, ४, ३; -याधि
आपश्री २१, १५, २२; १६, ३;
७; १२; हिथी १६, ५, ३४; -वे
आपश्री २१, १५, ९; १४; हिथी

१६, ५, १८; २६.
शयथ- पाठ ३, ११३.
शयन- पा २, ४, ३१†; ६, २, १५†;
-नम् वीथी २, ९: १४†; लाश्री
८, ४, १७; आशित् २, ६, ७: ३६;
३, ५, १: २; वीण १, ८, १३;
वीधि १, १: २; शी; -ना: अण
६४, ७, ६; -नात् कण ३, ३, १;
या ५, १९; -नानि हिथी १३,
१, ३१; -ने वीण १, ७, ३७; जैण
१, २३: ११; कौम् ३७, ४;
४७, ३९; अण; आपश २, ५, ५†;
विथ ७०, ६; शोध ९, २७; या
३, १५.
शयन-नात्- -त: विथ ६८, १९.
शयन-गृह- -दात् अण ८, १, २.
शयन-देश- -शे भाण ३, १३:
७; अण ७२, ३, ११.
शयन-पाद- -यम् कौम् ३६, ७.
शयन-पाना(न-आ)शन- -ना-
नाम् विथ २३, १२.
शयन-विध- -यम् कौम् १६,
३०.
शयन-शाशित्- -विनम् शंभ
३३३.
शयन-शाशो(शा-त)वैश- -रा:
कौम् ५०, १७.
शयन-द्वस्त- -स्तेन अण १,
२८, ४.
शयना(न-आ)दिक- -कम् वैण
३, १५: १७.
शयना(न-आ)सन-यान- -नम्

अण ७०†, २०, १; -नानाम् शंभ
१७०; -नानि अण ६८, २, ३३;
७०†, ३, २; -नेषु अण ७०†,
२१, ४.
शयना(न-आ)सनो(न-उ)सन-
रथ- -स्थम् वैथ २, १४, १५.
शयनीय- -यम् आण २, ७, ७;
-यात् काण २८, १.
शयान्, ना- -न: शाश्री १५, १९,
१†; आण; कौम् १४१, ४०†;
-नम् वाधुश्री ४, ७५: १०;
पाण २, ५, ३०; कौम्; वाथ ७,
१२; विथ २८, ५३; -नयम् वीथी
१४, ५: ५०; वाथ १३, १४;
विथ २८, २२; -†नाम् आपश्री
३, १३, ५; माश्री २, ८, ८;
३, १२, ३; माश्री १, ३, ५,
२६; हिथी २, ६, ३०; -नाम्
वाधुश्री ४, ३०: १२; -नाय
वीथ १, २, २९; -नाथै शाश्री
१२, २२, १†; -ने काश्री ४, १५,
१४; वैथ १, २, ३.
शयानक- पाठ ३, ६२.
शयाल- पावा ३, २, १५८.
शयित- पा ३, ४, ७२; -त: पा ४,
४, १०८.
शयित्- -तरि पा ४, ३, १५.
शयित्- -यते भाशि ८१†.
शयु- पाठ १, ७; -यवे शपा २,
५०†.
शयु-श्री वा ३, १५††.
शय्या- पा ३, ३, ९९; पाण ४,

a) सभा, देना ७, १५ सेरे इति पाठे. b) पाठः? से शेते इति शोषः (द्र. प्र. ३). c) वैष १, ५९९ द्र. ३. d) शय्या इति पाठः? वनि, शोषः (द्र. गोण). e) विप. (अहन्, परिधि-), नाप. (पाणि-). f) कर्तरी कृत्. g) भावाधिहरणयोः प्र. h) द्र. पावम. i) सभा, द्विप २, १, ८६ शय्यायाम् इति पाठे. j) द्र. = छद्वा- k) वत्. l) शयन-शु- m) शयान् वीथपादो च इति पाठः? शयान् वीथपादो च इति पाठ-शोषः (द्र. मू. १), वैठ. संस्कर्तुः टि. १) n) सभा, काठ ३१, १४ शौ ७, १०४, १ शयानम् इति पाठे. o) वैष १ द.

४, १२; -रथा वाथी ४, १५, ३०; वायु; -रथानाम् शंभु ३२५; -रथाम् वीथी २९, ५: २२; २३; हिथी; -रथायाः वीथु ३, १०, १३; -रथाम् वाधुथी ३, ३१: २; शायु; हिथ २, १, ८१^३.
 शारथिक- वा ४, ४, १२.
 शरथा-काल- के वायु ९, ६.
 शरथा-देश- श्री वायु १७, ९; वायव २, ४, १; हिथ २, १, ५४.
 शरथा-प्रदान- नैव विथ ९२, २७.
 शरथा-हारिन्- श्री शंभु ३७७: ६.
 शरथा (व्या-श)ज-पाल- नम् वायव २, २५, ९^०.
 शरथा(व्या-श)पहारिद्- श्री शंभु ३७८.
 शरथा(व्या-श)वनवन- नम् हिथी १७, २, १५.
 शरथा(व्या-श)वविथ (त>)ता- वाया: अथ ३५, १, ३.
 शरथा(व्या-श)स्तन- नम् माथी २, १, २, ३१; -ने वायव १, ८, ११; २, २२, २३; हिथ १, २, ९६; २, ५, १५४.
 शरथास्तन-दान- नात् वायव २९, १२.
 शरथा(व्या-श)स्तन-स्थान- नाति वीथ २, ३१.
 शरथा(व्या-श)स्तन(न-श) वलथा(श-श)नुनन्थो(उवा-उ) पास्तन- नाति वीथ ५, ३९.

शरथायान,ना- नः वायव २, ११, १७; -ना: या ९, ६६; अथ ४, १५; -नाम् वीत् १०७, २.
 शरथानिवा वीथु ४, १०: १३; वीथ ३, ८, २.
 शरथान- नः या ९, ६.
 शर- पाठना ४, ११२.
 शरीक पाषा.भ्वा.आत्म.तेचने; चुत्. उभ. भाषायाम्, आमर्षणे च.
 शरीक्यत^१-(> शरीक्यतायति- वा.) पाठ ४, १, १५४.
 शरीकर^२- वायु ३, १३१; पाठ २, ४, ३१^१; पावा ३, १, २७^२.
 शरीकराय पावा ३, १, २७.
 शरीक>)का^३ -> शरीकाय पावा ३, १, १०.
 शरीकाय- मते तेया ३, २५.
 शरीका- श्रिद् ६.
 शरीक^४- पाठभो २, ३, २०; पाठ ३, १, १२; -अम्^१ काथी १४, ३, २१; २०, १, २८; सु; वीथ १३, २२; वाज १७: ११^१; पाठ १, १, ३७^२; -श्री कौम् १४१, ४१.
 शरीक-नाति^३- नः याति १, ४०.
 शरीक->)गा^३- गा: अथ ५८^१, ३, ७.
 शरीक-तर- नम् श्रथा १३, १९.
 शरीक-स्व- त्वे पावा ४, २, ४५.
 शरीकाय पा ३, १, ११.
 शरीकिन्- श्री केशि २०९; याति २, ८२.
 शरीत,ता^३- वा ६, १, २४; पाठ १, ४, ७४; ५, १, १२३; २, ९७;

-तः गु १७, १; -तम् माथी १, १४, ४; हिथी १, ३, ५२; कौम् ७१, ९; अथ ७०^१, १७, ५; ७१, २, ५; -तस्य वीथी १८, ३२: १०^१; ११^१; -तः वीथी १७, ३९: ३; ४०: २३×५; वाधुथी; -तानात् अथ ६४, ५, १; -तानि: आमिथ २, २, ५: ८; -ताय अथ १, २५^१; -तासु पाठ २, १, ६; आमिथ २, २, ५: ८; वायव; -ते वाथी १०, ८, १२; १३; वाथी; -तेन वायथी ९, १९, १३; वीथी २०, ३८: ९; वायु ४, ८^१; विथ ४३, ४१; -तै: विथ ४६, १२.
 शरीत- वा ५, १, १२३.
 शरीक- वा ५, २, ७२.
 शरीका^३- न्-के वायु ४, ५, ४; वीथ ५, ५, ५.
 शरीका-न्(त>)श्री- न्-के विथ ४७, ५, ४; वीथ ५, ५, ५.
 शरीक-काम- ना: अथ ६८, १, १८.
 शरीक-कृष्ण- न्-तः विथ ४६, १३; -रथेण विथ ४०, २.
 शरीक-कृष्ण- वा १, ४, ७४.
 शरीक-तर- नेण वाधुथी ३, २८: २.
 शरीक-ता- वा ५, १, १२३.
 शरीक-तेजस्^१- न्तः अथ ५२, १३, ५.
 शरीक-त्य- वा ५, १, १२३.
 शरीक-वा(क>)की^३म्- कौम् शंभु ३३२^१.

a) सुल- शरथा -> सुल-शरथा- इति केचित् (द्र. पायन.) । b) पाठे, पृ २४०१ h द. ।
 c) पावा. विथ २, ५, १०८ अथवायम् इति पाठे. । d) व्यप. । शीक^३ इति पाका., शीक^३ इति पायन. ।
 e) नथ. । f) शरीकर- इति पाका. । g) द्र. पायन. । h) वीथ १ द. । i) वा. किति. ।
 j) वत. । k) उप. < > गम् । l) विलीनस्य इति केचन मूले. । m) = काकोली- । n) श्री इति पाठः इति. शोधा (द्र. पमा.) ।

श्रीत पुञ्ज- -वम् आप्तौ १, १३, १३, शशौ १, २, २, ३, १.
 श्रीत-भरमन्- -स्वमि माशौ २, २, ४, २५
 श्रीत-वर्षिम्- -वम्. अप ५२, ५, ४
 श्रीत-स्वर- -रे वेताशौ १४, १.
 शीत-ल, ला- पा ५, २, १५, -लासु विष ८५, ६५
 शीत-शीत- -ता अप ६४, १, १.
 शीत-हृव- -तम् शौशौ २४, १४ : ४
 शीता (त-धा)तद्वयम्- -हृक्वेन माशौ २, ५, १, ४,
 शीता(त आ)दि-त्राय- -णम् विष ५०, २१
 शीता(त घ)निल-तुपारण- -वम्. अप ६४, १, १
 शीतालु- पावा ५२, १२२.
 श्रीतिमद्- पा ५, १, १२३
 श्रीती/कृ>श्रीती-कृष्ण वैशौ ३, ८ ३
 श्रीती कृवा बीशौ १, ३ : २०, ६, ६ : १३, १६ x x
 श्रीती/भू>श्रीती भवद्- -यता बीशौ २६, १ १८
 श्रीती भाव->व कर्मन्- -मण या १, १
 श्रीती-भावन- -ने अप ४८, ५७
 श्रीती-भूत- -वम् माशौ १, १,

३, ३
 श्रीती(त-उ)ष्ण, ष्णा- -ष्णम्
 आमिष्ट २, ४, ७ : ५, -ष्णस्य रूप ६४, ३, ५, -ष्णा आशौ ६, ९, १, आण १, १७, ६, भाण १, २८ : १०, -ष्णमि आण १, १७, १७, ३, ८, ९, शौण, -ष्णे अप १, १५, १.
 श्रीतीष्ण त- -वम् अप ७०^१, २३, ४
 श्रीतीष्ण-दु, ला(स-घ)जु-मवन^१- -नम् विष २६, ३२
 श्रीती(त-उ)ष्ण वयं- -सै वा २, २२
 श्रीतीष्णवर् द्राष्ट- -तार वृदे ७, २८
 श्रीती(त उ)ष्ण वृष्टि-काल- -लेषु अप ७०, ८, २
 श्रीती^१- (>तैतामनि- पा) पाण ४, १, १५४
 श्रीतय->श्रीत्यायन- -न. तैत्र १७, १, ७, १८, २
 श्रीत्यायता(म-आ)दि- -श्रीताम् तैत्र ५ ४०
 श्रीयु^१- पाउना ४, ४०^१.
 श्री.सी^१यु^१- पाउ ४, ३८, पाण २, ४, ३१
 श्रीयु-यान- -नम् बीष १, १, २०
 श्रीन-, श्रीवद्- ✓स्यै द
 श्रीपय^१- -य शौशौ २, ५ : १८
 श्री.सी^१पाल^१- पाण ४, २, ८०^१,

-तम् षाण २, ८, १४, ४, ४, ८
 श्रीपाठिल- पा ४, २, ८०.
 ✓श्रीष् पावा भा. आत्म. फरवने
 श्रीम^१- -भम् कौम् २२, २८, अप ४८, १०६^१, निष २, १५^१, अप २, ४, १६^१
 श्रीमा(म-आ)दि- -शौ भाषि ५८^१.
 श्रीम- पाण १, ४, ५७^१
 ✓श्रीयु, श्रीयवाम्^१ शौशौ ४, १६, ५, आप्तौ २१, ३, १२, ४, ३, आमिष्ट २, ४, २ ४^१, कौष्ट ५, ८, ५, हिण १, २८, १^१
 श्रीर^१- पाठ २, १३, -श्रीम् आशौ ७, ११, १४, १७, निष ४, १, वा ४, १४^१
 श्रीर शोचिष्^१- -विषम् आशौ ४, १३, ७, ८, १२, ६, शौशौ १०, १२, १६, १४, ५५, २
 श्रीर्ष- प्रम् ✓शू(हिंसायाम्) द
 श्रीर्वि- पाठ ४, ५४.
 श्रीर्व^१- पाठमो २, ३, १००, पाण ४, २, ८०^१, -र्व पावा ६, १, ११, -र्वम् कौम् ३०, ९^१, अप १०७, ४५७ ६ x x, विष ९, २०^१ x x, अप २ ३७, -श्रीर्व आप्तौ ५, १७, ४, हिशौ ३, ४, ४८, या १३, ७^१
 श्रीर्वण-, श्रीर्व- पा ४, २, ८०
 श्रीर्व-क^१- -क शौष २, ८, २.

a) वष । b) वैष १ द । c) वैष १ १४६७ ११ द । d) मलो क्म >षत । e) =कृषि-विशेष- । हृ पाणम । f) =श्रीयु- । g) <✓श्री । h) पावा, [पक्षे] माण्डा. पाठ । i) नाप. (मण-) । j) अर्ष. म्यु च ? । k) पाषि, पाणम, [पक्षे] माण्डा पाठ । l) अर्ष ? । m) =श्रीप्र- । n) तु पावा ११७ । o) वैषु [पक्षे] मा [तैत्रा ३, ७, १४, ५] <✓श्री (रश्मे) इति, Böhler [DMMO ५२, ८६] <✓स्यै इति [४ २८६] मा अपि द । । p) श्रीय^१ इति पाठ^१ यमि शोष (हृ आप्तौ २२, ४, २) । q) श्रीरणा^१ इति पाठः^१ यमि शोषः (हृ मू, या [शौ ६, २१ म्], दारिकेयवी च) । r) =उपचारत् । दण्डनिर्वाहन-यत् । s) =शिशोप्रतवारित्- । तच्चरतोवर्षे क्म् प्र उष (पा ४, ४, ४१) ।

शीर्ष कपाल- लानि कौस् ८२,
३०

शीर्षीर्षकि- -किम् कौस् ३२,
१८, अण ३२, १, ७, अण २,
८, अण ३, ४, १.

शीर्षकि-मन्- मान् वैश्री १,
१ २१

शीर्ष पा०, पा० विन्- पा ३, २, ५१,
पाग ५, १, १२४, -नी पाग
३, २, ८४

शीर्षवा, पा० य- पा ५ १, १२४

शीर्ष चिह्न- पाग २, २, ३०

शीर्ष-च्छेद- > च्छेद- शीर्ष-छे-
दिक- पा ५, १, ६५

शीर्ष-वस्त्र- (आपथी १७, १९, १०,
बौथी १०, ५७ २१x, वैथी

शीर्ष वेस- शे कौस् ८६, २

शीर्ष पातिन्-
शीर्षा पै भार- (> शिक- पा)

पाग ४, ४, १६

शीर्ष मण्यम- -मा. वा ४, १३

शीर्ष मास- -सम् बौथी १०, ५९

२३, २५ ३२ ३६

शीर्ष रोग-भेषज- -वम् पाग ३,

६१

शीर्ष वर्तन- नान् विध ९, २२

शीर्षा(र्व श्)सा(स अ)गुका (ह अ)

परसन्ध- बधीनि वैथी १०,

१९ ७

शीर्षादि- -द्व निव ६ ११

२२, २६, -दीनाम् निम् ६,

११ २३

शीर्षा(र्व अ)मय- यम् अण

३२, १, ७, ४६, ५, ३, अण ५,
४, ९, ८

शीर्षन्- पा, पावा ६, १, ६०, -पन्

आपथी १, ४, १५, ८ ६, २३, १३,

७, १६x, बौथी, -पन्सु उस् ३,

५१, -पान् शैशि ११३१, -पान्णि

आपथी १२, १७, ३, बौथी ६,

१०: ८, १०, १२ ५, शिथी

६, ३, २, १०, ५, १११, अण

१, ६, ८, -म् काथी ७, ३, ३०,

आपथी ७, २५, ६, बौथी,

आपथ १, ४, १११, दिव १, १९,

७१, -म् ५ लं शैशि ११६,

-म् शौथी १२, २४, २१, १७,

१०, ७, आपथी, काण ४५,

७१, -ग्नि काथी ७, ९, ३,

वैथी १, १ २१, १२, १९ १६,

-म् लं आपथी १५, १, १०,

बौथी ९, २ १२, १६, २०, २४,

२८, भाथी

शीर्षन्, प्या- पा ५, ३, १०३,

पावा ६, १, ६९, -णम् अणम

१, १७, १, पाण ३, ६, २, पाशि

८, -प्या काथी ५, ४, १५, बौथी

१८, ३९ १, वाम्थी ४, २०

३, -प्यान् वाथी १७ १४, १,

माथी ६, १ २, २४१, वैथ १,

१ १५, ४: ६, -प्यानि माथी

१७, २, ८, १८, २, १, पाण ६,

३६, गौप १, ४१

शीर्षन्-वत्- -वन्तम् आपण २१,

५, दिव ६, ६४, -वान् आपथी

१६, ६, ३१, बौथी १७, २८

८, वाम्थी, वाथी २, १, १,
५२१, वैथी १८, ३: ८१,

दिथी ११, १, ६८१.

शीर्षीव्यती- नी अण १०,

११

शीर्षीमाय- पाग २, ४, ६३

शीर्षीव्यवसे स्थाप्य. वाथी २,

१, ६, २

शीर्षी पावा म्वा पर. तमाथी,

शुरा. उम उपधारणे

शीर्ष- पाठ ४, ३८, पाग २, ४, ३१,

५, १, १२४, २, १३१, -लम्

वाथी ७, ३, ८, वा १०, ४२, १४,

१०, पा ४, ४, ६१, -ले पावा

५, ३, ७२

शीर्ष- पा ५, १, १२४

शीर्ष वन्- -वते शव १३७, -वान्

कौण ३, १२, २९, वाण १६, २८

शीर्ष-वृत्त- -ताम्याम् बौथी २४,

१२ ५

शीर्षा(ल आ)वार-विहीन- -ना

अण ७०, १६, ४

शीर्षा(ल अ)मिहान- -म् अण

५२, १४, ५

शीर्षि, शीर्षयेत् आपण १, ३०,

७, दिव १, ८, ७

शीर्षिन्- पा ५, २, १३१

शीर्षिक- शिलिक- द

शीर्षवन्- पाठ ४, ११४

शीर्षर- (> शीर्षेय- पा) पाग ४,

३, ८०

शुं निप २, १५१, वा ५ १२, ६ ११,

९ ४० पाग १, १ ३७

a) वैप १ द । b) पावा पाठ । c) तु पापम । d) वत । e) = प्रात्व विशेष- ।
f) पाठ २ शीर्षणि इति सोच (ह कौ ३ ७, १) । g) पामे वैप १ वृक्षान् शौ ८, ६, २६ टि द । h) पामे
वैप १ शीर्षिकि शौ १२, २, २० टि द । i) <शित्त- । j) सपा च्याम् <> च्यान् (कठ ३८, १२ व)
इति पामे । k) सपा वै १६, ३५ २ शीर्षीव्यतीम् इति पामे । l) = श्रुति विशेष- । m) तु पाठि । नवीकर-
इति पावा पागम, शीर्षर- इति माकवा, (१५) पाठि । n) = क्षिप्र । अण्य । व्युं <शु (आद्यगमन) इति दे ।

शु-वादि (शु>) नी- नी वा ९,
२६.
शु-यादिन्- नी वा ३, १८.
√शु, शु (= √शु) > शवसान- पाठ
२, ८६; -नम् वा १०, ३१०.
शु- > शविष्ठ, शा- ०० वा १४,
२८; वनिम् ६: २१; -शः
शोशो २७, १४: १४; -उम्
शाशो १८, १५, ५; -डा आशो
५, २०, ६; शोशो ३, २०, ४;
आपशो २२, १७, १००.
शुन- वा ७, ३, १४; -नम् शपा
१४, ५६.
शुनवत्- वा ७, ३, १४.
√शुक्^० पापा. भ्वा. पर. गती.
शुक्- पाठ ३, ४२; पाठ ४, २, ४५;
-कम् विध ५०, ३८; -के शोशो
२, ५: २२; -पुंकेषु आपशो ४,
१५, १; माशो.
शोक- वा ४, २, ४५.
शुक-पिञ्जर- -रः माशि १, १३;
माशि १, ४, १.
शुक-शारिका- -के शंघ ४२६.
शुक-शारिकुर- -शानाम् कौम्
१०, २.
शुक-हरि- -रिः वैताशो ४३, ३२.
शुक-हरित- -रः आपशो २२, ७,
२२; हिशो १७, ३, २१.
रशुक- (> शोकेय- वा.) वाप ४,

१, १२३.
शुकम्^१ वाप १, ४, ५७.
शुक- √शुच् (वधा.) द.
शुक्ति- पाठमो २, १, १८९^३; वाप ४,
२, ८६^१; -न्या आपशो १८, ८,
१३^१; वाशो ३, २, १, ११; हिशो
१३, ३, २४^१; कौम् ७१, ६;
-न्याम् कौम् २२, ७.
शोक- -कस्य शाशो ६, १२,
२; -कानि शोशो १२.
शोक-नामैष- -षे शाशो ६,
१२, १.
शुक्ति-क (>) क- -का वाप २१,
११.
शुक्ति-मत्- वा ४, २, ८६; -मन्त्रम्
शंघ ११६: १००.
शुक्पा (वि-आ) कृति- -ति माशो
५, २, १, १५.
शुक्- शुक- √शुच् (वधा.) द.
शुक्षि- पाठ ३, १५५.
शुग्दक्ष- -कम् शंघ ११६: ५३०.
शुक्ल- -डा तु २१, ४; २२, १, ४;
कम् ३, ६, ६; -डाः आशो १२,
१३, २; आपशो २४, ७, ३;
शोशो १७: ७; हिशो; -डाव
पाठ १, १४, ३; -डाव् कौम् १,
१२, ८; शां १, २०, ३; आपठ
१४, १०; गोश २, ७, १७; -०डे
तु १०, २; १५, ५; २२, २.

शुद्धी- -शो तु ८, २.
शोह- -कः वा ४, १, १७.
शोह-शैशिवि- -रवा^१
आशो १२, १३, २; हिशो २१,
३, १०.
शोहि- (> शोहीय- वा.)
पाठ ४, २, १३८.
शोहेय- -यः तु १७, ५; -नम्
तु १७, ४.
शुह-शैशिवि- -नयः आपशो २४,
७, २४.
शुह-वचस्- -कः तु १८, ३.
शुह- (ह-आ) र्व- -वृता दाप २,
२, ३३.
√शुच् पापा. भ्वा. पर. शोके, शोचिति
तु ७, ३; १२, २; पुंशोचतु^१
आपशो ४, १२, ८; माशो ४, १८,
४; हिशो ६, ४, १०; शोचित कौप
१, ५, ८८.
पुंशुचम् आपशो ४, १२, ८;
माशो ४, १८, ४; हिशो ६, ४,
१०.
पुंशोचयामसि^१ आपशो ४, १२
८; माशो ४, १८, ४; हिशो ६, ४,
१०.
वशुशुचः शोशो १८, ४५: १८;
शोक- पावा ७, ३, ५९; -कः
शोशो २, ५: ७^१; श्व २३, १५,
६; दट, २, ५०^१; -कम् शोपि

a) वैप १ द. । b) = शू- (द्व. वैप १) । c) सपा. ता २१, ३, ७ शविष्ठा इति, हिशो १७, ६, ४४ शविष्ठा इति च पाठे । d) = वामशेषविशेष- । e) तु. DPG. । f) शुक इव पिञ्जर इति कृत्वा उपमितसमासः । उप. = हरितवर्ण- । g) दल. । कुर- = मारदाव- [पञ्चिन्-] इति केशवः । h) व्यप. । i) तु. पाठि. भायडा. पाठम. । j) नाप., व्यप. [लाशो. शैशो.] । k) < √शुच् । l) तु. पाठम. । m) = साम-विशेष- । n) = पर्वत-शेद- । o) वस. । p) = महद-विशेष- । q) महावृत्ता इति शक. (वायुसन्देशे) । r) नाप. (लतामूलपान- न्यशोभशास्त्रपुर- [कौष. पाठ. प्रथ.]), व्यप. । s) बहु. < शौह- । t) = विनता- । u) कव. । v) परस्परं पाठे । w) नाप. (द्वयर्ण-) । श्वपत्यार्थे वक् द. (वा ४, १, १२१) । x) उप. भावे < भा/शुच् । y) पाठे. वैप २, ३६. शोचतु तैसा ३, ७, ६, १९ टि. द. । z) पाठे. वैप २, ३६. नाशयामसि तैसा ३, ३, २, १ टि. द. ।

१४, २, ५, ६, ७, ३, ४, अण्,
 -काय कौम् २१, १२, -कै या
 ९ ३३, ३
 शोक्-कारण- णम् अण् ६८,
 २, ३६
 शोक्-रोप- वी वैष्ट ३, ९ १२
 शोक्-सम्भव- च अण् ६८, २,
 ३८
 शोका(क-अ)पसुद्ध- पा, पावा ३,
 २, ५
 शोका(व आ)तं- सं अण् ६८,
 २, १५
 शोक्त्- -चन्नि विध २०, ३९,
 -चन् वीथी १८, ४५ १४, ३३,
 वाय १५, १८, विध २०, ३७,
 -चन्त् विध २०, ३०
 शोक्चन- पा ३, २, १५०
 शोक्चत् (>) गी- गी वैष्ट १
 १८ १२, १
 शोक्चिमु १८, ४
 √शुच् (बधा) १० पाषा दिवा उभ
 वृतीमापे, शोषति निघ १, १९, १०,
 शोक्चत् वीथी ९, ७ १, १,
 शोक्चत् > चा वीथी ५, १३, ३
 आपथी ५, ६, ३, वीथी २, १४
 १५ दिथी ३, ७, ५४, वीथ
 शु द्वा ११, ११, ११ - कर् जैष्ट १,
 १९ २६, पाप २२२ आपथ १,
 १०, २५, ४४, विध, -का जैष्ट
 १, १९ २८, वीथ २ ३, ४०, गौण
 २, २५ -कानि कौम् १२, ८,
 वाय १४, ३७, अण् ४२८,
 वीथ १ ५ १४१, विध ५१, ४२,

-केषु यथ २३१
 शुक्क- -के गौण १६, २०
 शुक्क वाक्वा (वय-अ) भिधान-
 ने वीथ ३१२, विध ५, ३९, -नेषु
 २५ ६०
 शुक्क, का (वभा) ११४- पाठ २, २८,
 पा, पाण ५, २, १२७^b, पाण
 ४, १, १२३^३, २, ८०^३, ५ १,
 १२३, ८, २, १८^३, -१००क
 आपथी ५, १२, १, १७, २२,
 १, वीथी, दिथी ७, २, १५,
 -क १आथी २, १२, ५, ७,
 ११, २२, शीथी, काथी ९,
 ५, १७, आपथी १२, २२,
 ८^३, वीथी ७, १३ २०^३
 २५, १७: ८, १८ ४x, वाधुथी
 ४, १६ ९, १०० १६, वीथी
 १५, २८ ९^३, १^३ शीथी ८
 ७, १४^३, १८^३, आपथ १,
 १०, ८^३, आशिश १, ७, ४
 १०^३, वैष्ट ४, १३ ३, जैष्ट २, ९
 १५ अण् ५२, ११, ४, ७०^३,
 १९, ५^३, अथथ १^३, अथ २
 ११, ४, १७, ४०x, आवयो
 ७, ९, -कम् १आथी २, १६,
 ११, ३, ७, ८, ४, ६, ३, शीथी,
 काथी २, ६, ११, १४, २, आपथी
 १२, १५ २, २२, १, ५, वीथी
 ७, १३ १३, १४, ३०
 ७, २३, ११ १०, २६, ७
 २०, २१, माथी २, ३, ५, ७,
 ४, १, ६, १३, वाधुथी ४, ६८
 ५, १०० १७, वीथी १५ १६

४, २८० ३, दिथी ६, २, १९, ८,
 ४, १५, ७, ६, ९, १०, ४, २५,
 जैथी ९० २३, २३ ७^३, कैथीमा
 ५१^३, वैताथी ३०, १२, वैष्ट १,
 ४ १०^३, अण् ४८, ७५^३, शंथ
 ११६ ४८, विध २२, ८१,
 २८, ५१, दिध १, ७, ७१^३, वाय
 २८१ ४, वृदे ५, १९, ६ १४४,
 ७, ५^३, ७८; निघ १, १२^३, या
 ८, ११^३, अथ १७ ५, भाषि
 ७२, -कस्य आथी ७, ६, २^३,
 शाथी, काथी ९, २, ९, १२,
 ६, २३, आपथी १२, १, १२, २३,
 ४, माथी २, ३, १, १५, ४, १, १८,
 दिथी ८, १, २३, ७, ३१, अण्
 ७०^३, ९, ५^३, वृदे ४, १२, -१^३का
 आथी ८, ८, ४, शीथी, -का
 १आथी १३, २१ ३^३, १६, ३२,
 ७, १८, १३, ११, वीथी २ ११
 ८^३x, २३, १५ ७, २५, १७
 २, अथय २, ७, -काय काथी
 ९, ९, २२, आपथी, दिथी १५,
 ७, ३, वृदे ७, ६, -काय आथी
 ३, ७, ५^३, शीथी, आशिश २,
 ५, १ १६, १९, २८, ३५, ४५,
 -१^३काम् आपथी २, ७, ८,
 भाथी, -काम् वीथी १४, १२
 १०^३, -के आथी ४, १२, २^३,
 आपथी, अण् ७१, १७, १, वृदे ५,
 १५१, आपथी १३, ४^३, -१^३केल
 २थी १५, १५, ६, काथी, -१^३की
 कौष्ट १, ९, ८, शीथ १, १५, ८
 शीथ- के विध ७८, ६

a) वैष्ट १६ । b) या ६, १^३, ८, ११ पयस्य ६ । c) या दोरी शक्ति । d) आपथ पाठ ।
 दीर्घरान्द्रा । e) विध, नाप । f) पाषे वृ १८६० ० ६ । g) विशेष टि ६ । h) वृ. पावम. ।
 १) अण् । j) अथ १ । k) = अण्. मा ७, १३ अथ माय ४, २, १, १९ वैता १, १, १, २ । मे १, ३, १२ वृ शुक्ती
 इति पाषे । l) = साम विशेष । m) = उदक । n) शीथ वृ ४२३ । ६ । o) तत्र अधिके शुक्ते <>
 पुस्तानिरे इति पाषे । p) = शुक्-वार-। तस्येदमीय अण् प्र ।

शीकि- पा ४, २, ८०.
 शीकेव- पा ४, १, १२३,
 पाग ४, १, १०६^०, ५, ३, ११५^०,
 शीकेय- पा ५, ३, ११५
 शीकेयी- पा ४, १,
 १०६
 शीकर- पा ५, १, १२३
 शुक्र अणु(भ) > मा^० - मा पा ४
 ३, ३, ५१^०
 शुक्र-मह- इम् वैश्री १५ २७
 २२
 शुक्र-माल- ने अर ५१, ४, ४
 शुक्र-चन्द्र^० - न्ने द्राश्री २, २,
 २६, लाश्री १, ६, १४.
 शुक्र चार^० - रस्य का ६८, १,
 १
 शुक्र-गृह^० - इम् वाश्री ३,
 ४८, २.
 शुक्र-ज्योतिष^० - ति काश्री
 १८, ४, २३, वीश्री १०, ५३ २^०,
 माश्री ६, २, ५, २३, वाश्री
 शुक्र-श- ण्य- पा ५, १, १२३
 शुक्र दिन- ने वाज्यो ८, ७
 शुक्र-धारा^० - नाम माश्री २, ३,
 ४, २१, ५, १, १४, -नावा
 माश्री २, ३, ४, २३, ४, ४, ८
 शुक्र-भुव^० - श्री अश्राप ६३
 शुक्र मिश्राकर- श्री आगिण २,
 ५, १ ६ जेद २, ९, ५
 शुक्र प^० - पा आपश्री १२
 २२, १, वीश्री ७ १३ २०,
 माश्री २ ४, १, ६, वीश्री, -केष्य
 वीश्री ७३ १५

शुक्र-पवित्र- नार जेधी १८
 ११
 शुक्र-यात्र- ग्रम् आपश्री १२,
 २३, ११, वीश्री ७, २ ११, ६
 ४५x४, हिश्री, -जे काश्री ९,
 ११, ४, माश्री २, ४, २, २५,
 -श्रेण काश्री ९, १४, १, आपश्री
 १२, २८, ४, १३, ८, ४, वीश्री
 शुक्र-पिण्ड^० - पिण्डम् या ८,
 ११३
 शुक्र-पुत्र- आ अण ५२, १, १
 शुक्र पुरोह^० - रचा काश्री
 १५ ७, १३
 शुक्र-वेसाह- कसम् या ८ ११
 शुक्र-प्रतिषेध- चम् वृदे ४, १३
 शुक्र-भन्ति- ति काश्री १०, १,
 ११
 शुक्र नृप- भृव हिश्री ८, १,
 ८१
 शुक्र-मन्थि-वमस-होम- माव
 वेताश्री १२, ११
 शुक्र धर- ण्यव काश्री ९,
 १०, १३, १०, २, २, आपश्री,
 -वन्ति वीश्री १४, ६ २५^०,
 -वाव माश्री १, ६, १, ६
 शुक्रजती- रव तिष्ठ २,
 ११ ११
 शुक्र-वर्ण(र्ण) > णा^० - णाम्
 आपश्री ५ ६, ३, हिश्री ३ २,
 ५६
 शुक्र शुचि^० - वाग २, २, ३१
 शुक्रशत्रु- नम् वाश्री ४,
 ११८ १०^१

शुक्र शोचिस्^० - पि आपश्री
 ५, ८, ६, वीश्री २८ १ १८, २
 २३, हिश्री ३, ३ ५ -विषा^०
 आपश्री १२ २२, ८, वीश्री ७,
 १३ २०, वीश्री १५, २८ १,
 हिश्री ८ ७, १४, १८
 शुक्र शोचि-सवोप- नाव या
 १४, ६
 शुक्र-सकर- र वृदे ४, १३
 शुक्र-स्तोम^० - मम् काश्री १४,
 २०, १
 शुक्र-स्वाव- जे काश्री १०, ५,
 १०
 शुक्र(क-अ)म^० - म आपश्री
 २१, २२, ११, हिश्री १६, ७, २३,
 -ग्रम् आपश्री २१, १४, ३, ५,
 २२, ८, २२, १४, ३, ६, ९, १३,
 वीश्री, -मा वीश्री १६, १७
 ८, -प्रान् आपश्री १२, १४, १,
 माश्री २ ३, ५, २, वैश्री १५
 १५ ४, हिश्री ८, ४, २, -जे
 आपश्री २१, १४, ५ वाश्री ३,
 २, २, ४०, ३, ३४, हिश्री १६ २,
 १३
 शुक्र(क-अ)भिरक- के या १४,
 ६^०
 शुक्र(क आ)दि- दीनाम् अण
 ५२ १६, ३
 शुक्र(क-अ)नार- वाव काश्री
 १० ३ १७
 शुक्र-मन्थि^० - प्यिनो काश्री
 ९, २, ८ आपश्री, -प्यिनो
 काश्री ९, ७, ११, आपश्री १२,

a) = आशुभकीविसर्पविशेष । b) वर । c) सपा वै ४, ३, ११, ५ वा ३९ १० शुक्रपंजा इति पाठे ।
 d) [आश्री] इति । e) = शुक्रग्रह-गति । f) विप (अग्नि) । वस उप = अग्नि विवा । g) वैप १ ६ ।
 h) एण = गोम-१ । i) = सोमयात्र-इय-१ । j) = शुक्रवात-मन्त्र (मा ७, ११) । k) इ वागम । = ज्येष्ठ
 वापाठ । l) ऋ अ इति टास्वर्तुं टि । m) = सपा मा ७, १३ प्रम् माव ४, २, १, १६ वेना १, १, १, २ । नै १,
 ३, १२ इ शुक्रशोचिवा इति पाठे । n) वाप, (पह) । o) पाठे पृ २४०६ ० ६ ।

१८, २०, १९५, २३, ११^५xx,
 १३ २, १, वीथी, -न्विभ्याम्
 काथी २, १०, १, आपथी १२,
 २२, १, वीथी २१, २० १, १०,
 माथी २, ४, १, २०

शुक्रामन्वि प्रवृत्ति- नीन्
 माथी २, ४, ४, ९

शुक्रामन्वि चर्चित- -तानाम्
 वीथी २१, १४ . ६

शुक्रामन्वि सख्य- -नेष
 काथी २२ ५, २५

शुक्रिमन्- वा ५, १, १, २३

शुक्रिन्- वा ४, २, २६, -र्ष्यम्
 वीथी ९, १९ २४, २५xx,
 माथी ४, ८, १ शांठ ६, ४, १३,

पाठ, -चस्य माठ १, ४, १४,
 -यत्नाम् निम् ५, ८, २, -शामि
 निम् ५, १ ३, शामिठ १, २, १

१०, ३. २१, वीण ३, १, २२,
 २, ४, २७, जैठ १, १६ ६,
 -ये शाठ २, ११, ९, -वेभ्य

शामिठ १, २, ३ ७, २४^१, -येषु
 लाथी ७ ६, १०

शुक्रिय महापर्य- -र्यम् कौठ
 २, ७, ८

शुक्रिय महाचारिन्- -नी
 वीथी २, ७, ९, १०

शुक्रिय महापा (वा म) रण-
 माहायण (वा-सा) दि- -दि वैठ
 २, ११ १०

शुक्रिय-वत्- -तम् वैठ २
 ११-७^१, १३ ५, -तस्य वैठ
 २ ११ १६

शुक्रिय-सदृश- शानि निम्
 ५, ८ १०

शुक्र, शुक्र^{१०}- पाठ २, २८, वा, पाग
 ५, २, १२७^१, पाग २, ४, ३१^०,
 ८, २, १८^०, कि १३, -ऊ काथी

१६, १८, १८^१, वीथी १५ ३७
 १^१, १८, १ ५^१, वाधुथी,
 वेज्यो ६^१, -ऊम् काथी ९, ८,
 २, काथी ९ २, १६, आपथी २,

२, ७xx, २०, २२, ६^१, वाधुथी^१
 ४, ६५ ५, १०९ ६, ११८ ३,
 ४^१, ७, ८, वाथी, हिथी १४, ५,
 ४^१, शानिठ २, ७, ५ १०^३,

वैठ ५, १ १^६, -ऊया वीथी
 ६, १५ १२, जैठ १, ७, ४,
 -ऊस्य वाधुथी ४, २० ३, वाथी
 ३ ४, ५, १७, -ऊा वीथी १०, ६

१^१ द्विथी ४, २, १५^१, अप ५८^३,
 ४, १४, १५, विष ४९, १०,
 -ऊा आपथी १९, २०, ९,
 वीथी, -ऊा वीथी १५, १, १६,
 आपथी १९, २०, ८, वीथी

१३, २१ १०, हिथी २२, ३,
 २६, शानिठ २, ३, १ ४, वीथ
 ४, ५, २४, -ऊनाम् वीथी २८,
 ४ १८, माथी २, ३, १, १८,
 ५, १, ६, १, ९, १, हिथी ७, २,
 ७७, -ऊानि वाधुथी ३, १०१

३, अप ५, ५, ६, विष ७९, ६,
 शुम् १, १, -ऊानि वीथी ५
 ५ ८, -ऊाम् आपथी १०, २६,
 १९, वीथी ४, १ २, ३. १४,
 माथी, -ऊाय वाधुथी ३, १९

६, पाठ १, १२, ४, -ऊायम्
 वीथी १, १२ ५०^१, -ऊे
 काथी १५, ९, १५^१, २२^६, वीथी,
 वाठ ३, १३^६, अप ३१, ५, १^१,
 ५०, ५, ६, वाध २७, २१^१, वैष
 २, १२, ७^१, वेज्यो १५^१, -ऊेव
 वीथी १७ ४५ १, वाधुथी^१ ४,
 ६५ ४, १०९ ६, जैठ १, ७
 ५, अप, -ऊेषु वैठ २ १२.
 २२, विष ९९, १६, -ऊै कौठ
 ४, १, ४, अप १८, १, ६
 शुक्र-कृष्ण, ष्या- पाग २, ४,
 १४, -ण्यो. वीथी २१, ९
 ४, -ण्यानि कौठ १, १६, १६,
 शाठ १ २४, ७, -ण्यो आपथी
 १०, ८, १६, वीथी ६ ५ ३,
 २१, ९ ५, वाधुथी ३, १९
 ३२, वीथी, -ण्येषु वाथी १६,
 ५, १

शुक्रकृष्ण कृत्- -वात् वीथ
 ४, ५, २६

शुक्रकृष्ण रोमन्- -शानि
 वीथी १३, ७ १७^६

शुक्रकृष्ण-रोमन्- -शानि^१
 आपथी १५, ५ १२, माथी १३,
 ५, १६, हिथी २४, ६, ६

शुक्रकृष्ण-सधि- धिम् काथी
 ७, ३, २०

शुक्र चतुर्वन्ती- -शोम् वीथ ३,
 ८, २

शुक्र-वत्- -रस्य पावा ५, ३,
 ५५

शुक्र-वत्- पाग ४, २, १३८^०,

६, पाठ १, १२, ४, -ऊायम्
 वीथी १, १२ ५०^१, -ऊे
 काथी १५, ९, १५^१, २२^६, वीथी,
 वाठ ३, १३^६, अप ३१, ५, १^१,
 ५०, ५, ६, वाध २७, २१^१, वैष
 २, १२, ७^१, वेज्यो १५^१, -ऊेव
 वीथी १७ ४५ १, वाधुथी^१ ४,
 ६५ ४, १०९ ६, जैठ १, ७
 ५, अप, -ऊेषु वैठ २ १२.
 २२, विष ९९, १६, -ऊै कौठ
 ४, १, ४, अप १८, १, ६
 शुक्र-कृष्ण, ष्या- पाग २, ४,
 १४, -ण्यो. वीथी २१, ९
 ४, -ण्यानि कौठ १, १६, १६,
 शाठ १ २४, ७, -ण्यो आपथी
 १०, ८, १६, वीथी ६ ५ ३,
 २१, ९ ५, वाधुथी ३, १९
 ३२, वीथी, -ण्येषु वाथी १६,
 ५, १

शुक्रकृष्ण कृत्- -वात् वीथ
 ४, ५, २६

शुक्रकृष्ण रोमन्- -शानि
 वीथी १३, ७ १७^६

शुक्रकृष्ण-रोमन्- -शानि^१
 आपथी १५, ५ १२, माथी १३,
 ५, १६, हिथी २४, ६, ६

शुक्रकृष्ण-सधि- धिम् काथी
 ७, ३, २०

शुक्र चतुर्वन्ती- -शोम् वीथ ३,
 ८, २

शुक्र-वत्- -रस्य पावा ५, ३,
 ५५

शुक्र-वत्- पाग ४, २, १३८^०,

६, पाठ १, १२, ४, -ऊायम्
 वीथी १, १२ ५०^१, -ऊे
 काथी १५, ९, १५^१, २२^६, वीथी,
 वाठ ३, १३^६, अप ३१, ५, १^१,
 ५०, ५, ६, वाध २७, २१^१, वैष
 २, १२, ७^१, वेज्यो १५^१, -ऊेव
 वीथी १७ ४५ १, वाधुथी^१ ४,
 ६५ ४, १०९ ६, जैठ १, ७
 ५, अप, -ऊेषु वैठ २ १२.
 २२, विष ९९, १६, -ऊै कौठ
 ४, १, ४, अप १८, १, ६
 शुक्र-कृष्ण, ष्या- पाग २, ४,
 १४, -ण्यो. वीथी २१, ९
 ४, -ण्यानि कौठ १, १६, १६,
 शाठ १ २४, ७, -ण्यो आपथी
 १०, ८, १६, वीथी ६ ५ ३,
 २१, ९ ५, वाधुथी ३, १९
 ३२, वीथी, -ण्येषु वाथी १६,
 ५, १

शुक्रकृष्ण कृत्- -वात् वीथ
 ४, ५, २६

शुक्रकृष्ण रोमन्- -शानि
 वीथी १३, ७ १७^६

शुक्रकृष्ण-रोमन्- -शानि^१
 आपथी १५, ५ १२, माथी १३,
 ५, १६, हिथी २४, ६, ६

शुक्रकृष्ण-सधि- धिम् काथी
 ७, ३, २०

शुक्र चतुर्वन्ती- -शोम् वीथ ३,
 ८, २

शुक्र-वत्- -रस्य पावा ५, ३,
 ५५

शुक्र-वत्- पाग ४, २, १३८^०,

a) विर, वाप (म [माथी शांठ प्रम्], सामन्- [लाथी निम्] वाण- [शानिठ प्रम्]) ।
 b) विषेण टि द । c) वैष १ द । d) वृ पाग । e) वृ पाणि । शुक्र- इति भाषा, शुन्व- इति
 पाप । f) तत्र शुक्र <> शुक्रम् इति पाठे । g) = शुक्र-ण्य । h) = रेतम् । i) शृम्
 इति पाठ इति चोष (वृ आपथी) । j) स्या आपथी ७, ६, १ माथी ७, ५, २ शेषाम् इति पाठे ।
 f) परस्परं पाप ।

-क्ष बाधौ २४,६,२६, -क्षस्व
मात् २,१३,२, अप १७,१,२,
५०, ९, ५, विष ७३, २, -क्षे
काधौ ७, १, २१, काधोक्ष ३
७, वैधी, -क्षेप वाप १३, ६,
-क्षी काधौ १४,१,२

शुक्लपक्ष प्रतिपद्- यदि
काधीति ३ २.

शुक्लपक्ष-सप्तमी- म्याम्
काधौ २४,५,३०.

शुक्लपक्षा (क्ष अ)ष्टमी-पर-
-न्त् अप ५३,२,२.

शुक्लपक्षीय- पा ४,२,१२८
शुक्ल-पुण्य-दिन (न ऋ)र्क्षे-
-क्षेपु वीध ४,५,३.

शुक्ल-पुण्य-> ण्य-हरिठपुण्य-
-व्ये कौम् १०,१६

शुक्ल प्रतिपद्- यदि वाजयो
४५,१.

शुक्ल-प्रसूत- न्य कौम् ३६,
१२, -नस्य कौम् २६, २६

शुक्ल-प्राधान्य- म्यात् वीध १,
५,१०७.

शुक्ल-बलि-> ण्लि श्वेतसर्प
दधि-तच्छुल- लम् वैश २,
१ ७

शुक्लमाहणकर्मन् अप ४१, ३,
७

शुक्ल-भाव- वात् पावा ५, ३,
५५

शुक्ल माध-> (शुक्लमाधिक-
पावा.) पावाग ४,५,१

शुक्ल-माख्या(क्ष-अ)म्बर-
धर-र अप ६८,२,२५

शुक्ल रक्त- काश्याम् कैश १,

५१५

शुक्ल-व(र)तो- रप काधौ
१६,१,४१.

शुक्ल-व(ता)त्मा- -सावा
काधौ १५ ३,२०.

शुक्लरसा पयस्- -वसा
काधौ १८,४,२.

शुक्ल-वर्ण- -र्णानि याशि २,३

शुक्ल-वासर्- सप्त अप ३०,
२,१, -सप्तम् अप १, २१, १,

-सा अर ४, १, २, ५, २, ८,
१,३, ३३, ५, १, ३७, ८, १,
३८,१,३, ४४, २, ५, ६८, ३,
२३, वीध २०३.

शुक्ल-सूत्र- श्रेण ह्यिपि १.२०.

शुक्ला(क-क)कुर- -रम् वैशी
१,११९

शुक्ला पवस्- -वसि काधौ १५,
३,२२.

शुक्ला(क-अ)र- -रम् बाधौ
२०,१,३३.

शुक्ला(क-अ)म्बर-धर, रा-
-र आगिष्ट २, ३, ३ ३, अप
६८,३,६, -रा अप ३१,७,१,
६८,२,२१.

शुक्ला(क-अ)म्बर-व्यज- -वी
अप १८,१,६.

शुक्ला(नल क)म्ब (र)रा-
-रे विष ९२ ३

शुक्ली (>शुक्ली √कृ पा)
पाग १,४,६१

शुक्लै(क-ए)क-वासर्- -सा
जैश १,१७: ३

शुक्लो(कल-उ)कर्म- -यं
आगिष्ट २,७,६ १४

शुक्लो(कल-क)र्ण- -र्णानाम्
काठौ ११८, -र्णानि: काठौ
२५

शुक्ल- -चन्तम् वा ५,३,१ कृ.
शुक्लमाल- -न या १०,४१ कृ.

शुक्लव- -नन्त साधौ १४, ५७,
१२

शुक्लान- -न. वैताधौ १४,१ कृ

शुक्लि,ची- पाठ ४,१२०, पाग ६,
३, ११९, -चय ण्काधौ २,१,
२५x, काधौ, अम २५१, आपव
२, १८, ७, २५, १३, वीध
१,५,५०,६,२, -चये आधौ ३,
१३, ४, शाधौ २, २, ७, ३,
४,६, १४,२,१४,१९, काधौ ४,
१०, ९, २५, ४, ३४, आपधौ
२, ३,२२, २३x, वीधौ, कश्च
२,१,९७, वृदे ३, १२९, -वि
आगिष्ट १,७,१-६,२,३,१-२
३, मात् १, २६ ३, ह्यिष्ट,
-वि ण्काधौ २, १, २५, १२,
५x, शाधौ, काधौ १७, ८,
१६, आपधौ १७,१,७, वैशी
१०,३८ २ कृ, वैशी १९, २:९,
आपग १, १०, ६, आजयो ५,
१८, वेज्यो १, -चिना आपधौ
१६, १५,७, माधौ, -चिन्व
वीध १ ६, ३, -चिम्ब साधौ
३,७,१३, शाधौ २, ३, १०,
३,१२,७, ६ १०,१, ९, २४,
६x, आपधौ, -ण्ची आधौ ३,
७, १२, शाधौ, -चीव आगिष्ट
२,३,२-३ ३ ६x, आपव,
-ण्चीनाम् आधौ ३, ७, १२,
वीध, -चीनि अय १७२, १७६,

a) (शुक्लधौ (तु केतव) इत् । b) कप । c) वनाहारे इत् । d) तु पावम् । e) वस ।
f) विष, नाप (अग्नि-आपादात्म- [आपधौ प्रम्]) । वैश १ इ । g) पागे वृ २२५० j इ । h) विष.
(कल-): i) =सप्ता ते १,४,१४,१ । मा ७,३० माश ४,३,१,१५ तु शुभ्ये इति पागे ।

बोध १, ५, ५३; -०चे माधौ
 ५, १, २, १०५; -चे: बौधौ २८,
 २: ३२; ३९५; वैशौ १, १६:
 १२५; जैश्री १ ११०; वैशाथी;
 -बौ माधौ ४, ६, ३; ७, १,
 ८, ३; आण २, १, ९५; ३,
 २, २; कौश ४, २, ३; शाण.
 शौच-चम् बौधौ २९, ११:
 ६, १७, ५५; -चस्य विध २२,
 ९३; -चानाम् विध २२, ८९.
 शौच-काम-मस्य शेष
 ५३.
 शौच-ज्ञ-ज्ञा: बौध १,
 ५, ४७.
 शौच-वम् (ः) व्याप २,
 १५, १२; ह्यि २, ३, ४६.
 शौच-देश-मन्त्रा (न्य-मा)
 वृद्ध-अर्थ-द्वन्द्व-संस्कार-काल-
 भेद-देशु बौध १, ६, ५०.
 शौच-द्रव्य-व्याधि शेष
 १६८.
 शौच-विद्-उम-मः
 वाप १२, १७.
 शौच-विधि-वि. बौध
 ३, १, २१; -विम् वाप २७७:
 ४.
 शौच-शिष्ट-ष्ट: गोप
 ९, ६९.
 शौचा(न-आ) चार-विच-
 शिष्ट-ता: शेष १४३.
 शौचा(न-अ) विद्यान-
 चम् बौध १, ५, १.
 शौचा(न-अ)र्थ-चम्
 व्यापि २, ६, ८१ ३; शेष ९८.

धृप२; बोध १, ४, १६; २, ६, २६.
 शुचिकर्म-(>शौचिकर्मि-
 पा.) वाग ४, २, ८०.
 शुचि-काम-मा: कौम् ७३,
 १८५; बोध १, ५, ६२; ६, २.
 शुचि-कार्य-वौ कौशु ३, १०५.
 शुचि-वन्मरु-मान: बोध
 १, ६, ३.
 शुचि-नि(डा>)ह-ह: हिथी
 २१, १, २५.
 शुचि-तपस्-वपस्य-वर्तम्
 वौश १, १, १९.
 शुचि-ता-वाम् शेष १७८;
 विध २३, ५५.
 शुचि-देश-प्ररोहिन्-हिणाम्
 व्य ७०, ४, ८.
 शुचि-द्रव्य-व्यै: माधौ ३, १,
 २४.
 शुचि-प(द>)दी-वाग ५, ४,
 ११९.
 शुचि-या-वा: थाथी २,
 २०, ४; ३, ८, १; ८, १, २;
 थापथी १२, १, २; १४, १; १९,
 १७, ८; बौधौ.
 शुचि-प्रवा(द>)दा-दा: निम्
 ६, ११: ८.
 शुचि-वर्षम्-(>√शुचितवर्षम्
 पा.) वाग ३, १, १२.
 शुचि-वास्य-मस: आण २,
 २, २; जैण २, १: १; -मसम्
 वौश २, ५, ७; -सा: वौश २, ८:
 १; वौश ३, ५, २; ९, २; चम्पू
 ४: १७.
 शुचि-वत-व-व-वा: माधौ २३,

७, १६; माथी २, ४, २, ११;
 वाथी ३, २, २, १५; हिथी; -वा:
 कौम् ८२, १२५; -वामाम् वाप
 २१, १४.
 शुचि-वत-तम-म: आथी
 २, १, २५; हाथी २, २, १७;
 बौधौ.
 शुचि-शील-ल: अप १, ४६,
 २.
 शुचि-शुक्-वाग २, २, ३१.
 शुचि-ध्रुवस्-व: विध ९८,
 ५०.
 शुचि-प(<स)द-पद आथी
 ८, २, १४; हाथी ११, १४, १४;
 काथी १५, ६, २६: ४: ४; थापथी.
 शुचि-जनस्-व: वाप २,
 ७: २१५.
 शु(वि>)वी-व(त>)वी-वा
 ६, ३, ११९.
 शुच्य(वि-अद्)क्षी-क्षी
 माधौ १०, २२, ४६.
 शुचिस्-(>√शुचीय-पा.) वाग
 ३, १, १२.
 शुचि-विथी ४, २, ४०५.
 शुचि-चान-म: आथी २, १३, ८५.
 शौच्->शौचिष्-व: बौधौ
 ३, ८: ३; माथी ६, २, २, २१;
 वाथी २, २, ४; कौम् ६८, ३१.
 शुचि-वत्-वन्तम् आथी ४, ६,
 ३; साथी ५, १, १६.
 शुचि-व-व्य: व्य १८, २;
 -चित् आथी ५, २६, ५; माथी
 ५, १८, १; हिथी ३, ६, ५.
 शौचिस्-पाठ २, १०८; -वि:

a) वस. । b) [वासानाम्] इति. । c) प्यन्ता इति पाठः इति. शौचः (वृ. श्र १, १५, ११) ।
 d) वृ. वागम. । e) = विष्णु- । वस. । f) पाठः इति. ह्यि २, ७, २ शिविष्ठ इति पाठि. । g) विप.
 (गोमन्थ्यकी) । वस. । h) स्या. नै ३, ७, ४ शुच्यदहृती इति पाठि. । i) पाठः इति. शौ १०, ६, २
 आथी ७, १, १ प्रसु. शुचिम् इति । j) वेष १ ६. ।

आपथी ६, ११, १, १५, ४, १,
 ७, ४, वीथी, -पृथिव्या आपथी
 ८, ४, २, वीथी, -पृथिव्ये आपथी
 १५ ७, ३, १७, १३, ५, वीथी.
 पृथोचिद्वृक्ष- -श आपथी
 ५, ६, ३, द्विथी ३, २, ५५, -शम्
 वाधुथी ३, ४८ १
 पृथोशुचान- -न आपथी ९, ८, ६,
 वीथी १०, ५ १xx, द्विथी.
 शुच्- पापाम ३, ३, १०८, पृथुक्
 आपथी ३, ६, २३, वीथी, शुचम्
 वीथी १०, ३४ ०, ६, १०xx,
 वीथ ३, १३, ४, वा ६, १६,
 पृथुचा आपथी ७, ५, ३, १५,
 १६, ४, वीथी १७, ४० २०,
 माथी ११, १६, ६, द्विथी,
 वा ६, १६, पृथुचि वीथी १०,
 ००: ४, वीथी १८, १३ ३
 पृथुग् व(>) वी- -नी वीथी
 १०, २२, ३६.
 शुच् वि(>) द्वा- -द्वा आपथी
 १६, २६, ७, वीथी १८, १८
 १४
 शुचत्-प्रम्, शुचि- √शुच् (वधा)
 ३
 शुचि- चय वीथी ७ १४ १४
 शुचिद्वृक्ष- > शौचिद्वृक्ष- वा
 वीथी ४५ १, निम् ३, २
 १६, ४ २, २०, ३१, ३५

शौचिद्वृक्षि- -क्षि वीथी ६, ३,
 २१, आपथी २, ११, १५, ६ ९,
 १४xx, निम् २, १२ २, ३,
 ४ २०xx
 शौचिद्वृक्षि- -श्वया- पा ७, १,
 ८१
 √शुच्य् पापा म्वा पर अनिपदे
 √शुच् पापा म्वा. पर. प्रतिपाते,
 चुरा पर आचस्ये
 √शुच् पापा म्वा, चुरा पर
 शोचये
 शुष्ण्ड, ष्ण्डा- -ण्ड वीथी ४३,
 ३२, -ण्डम् वीथी १२, १७
 ०१, -ण्डा वीथी २२, ११, २५,
 माथी १०, १४, १९, -ण्डवा
 आपथी १०, २२, ६, वीथी १७,
 २ १, द्विथी ९, ७, १५
 शुष्ण्ड- > शुष्ण्ड-शर-शुष्ण्ड-विशीर्ष-
 लृण नन्द मूलय-बल्यद- -जानि
 वीथी ११, १० १०
 शुष्ण्ड(>) वृक्षी- -ष्ण्डम् आपथि ३
 ५, ५, १७
 √शुष्ण्ड पापा म्वा पर सारदन्-
 प्रमर्दनयो
 शुष्ण्ड(>) षण्डा (वधा)- पाग ४, १,
 १८
 शुष्ण्ड- पाग २, १, ४०, २,
 ३८
 शौष्ण्डावन- पा ४, १, ९८.

शौष्ण्डावन- पा ५, ३,
 ११३
 शुष्ण्डा-मूल- -रम् आपथी १९,
 ६, ३, द्विथी २३, १, १२
 शुष्ण्डा- - पा ५ ३, ८८
 शुष्ण्डक- (> शौष्ण्डक- पा)
 पाग ४, ३, ७६
 शुष्ण्डिका- (> शौष्ण्डिक-
 शुष्ण्डी- वा, पाग ४, २, ८२
 शुष्ण्डी- -प-दि वा ९, २६, -प-दी
 निप ५, ३, वा ९, ३९, वैशि
 ३२७, -दवा वृदे १, ११४
 शुष्ण्डि पाग १, १, ३७
 शुष्ण्ड- प्रम् √शुष् द
 शुष्ण्डपिङ्गला- (> शौष्ण्डपिङ्गलेय-)
 √शुष्, शुष्ण्ड, शुष्ण्डि वीथी ६,
 ६, २, १६ १, १५, शुष्ण्डानि
 वीथी ६, ६, ३१, पृष्ण्डान्
 आपथी ७ १, १०, वीथी ४, ४:
 १३xx, ६, २७ ३, माथी ७,
 ७, १३, वीथी, पृष्ण्डान् आपथी
 ९, १७, ४, ५, द्विथी १५, ७,
 २४, २५, वैप २, १ ३४,
 शुष्ण्डान् वीथी २५, ११, ३३, १,
 पृष्ण्डान् वीथी २, ६, १४,
 वीथी ६, २, १७, आपथी १,
 ७, १३, ८, १६, ४, माथी, माथी
 १, ८, ३, ७, शुष्ण्ड १, ३३३
 पृष्ण्डान् वीथी ७, ९, ९, ९,

a) वत् । b) वैव १३ । c) तु पापाम । d) परस्पर पाप । e) न्यप । f) उपस्ये
 अन् प्र (वैतु श्व < शौचिद्वृक्षि-) । g) √शुच्य इत्येके । h) √शुष्ण्ड इति स्वामी ।
 i) पु ११९ ड ड । j) = अल्प ऊपान- इति भाष्यम् । k) अर्थं व्यु च २ । l) = शोचि विदेश- ।
 m) तु श्वप । n) नाप (चुरा-), हसि क), व्याप (श्वपि) । व्यु २ < √शुच् इति शक । o) विप
 (वैदत्) । उपमानं वत् । पूष = हसि-शर- इति ०, = १३दहन इति द्विथी माथ्यम् । p) = नय शुष्- ।
 मत्तवीर्यं वृ प्र । q) वृ २३५७ य द । r) = शुष्ण्ड वक्ष- । अथ । s) पु १७०, f द । t) पापा
 दिवा पर वीथे । u) पापा म्वा पर शुष्ण्ड, चुरा एव शौचिद्वृक्षि । v) वधा शुष्ण्डान् (ठि १, ३, १, १,
 ६, १७) <> शुष्ण्डान् (मा ५, २६ प्रम् माथा ३, ६, १ १३, ७, १, ६ च) <> वी १८, ४, ६७ शुष्ण्डान् इति च
 पाये । w) पाग वैप १ शुष्ण्ड वृत्त ३४, ५, ५ टि द । x) पापे वैप १, २-६५ ८ द ।

१०, ६, १^३, वीथी ६, २।७,
 माथी, हिथी १०, १, ३४^{१०},
 ण्णुध्वस्व, > स्वा आपथी १,
 १६, ३, ६, ३, ४^१, ७, ४, ५, १९, २,
 वीथी, ण्णुध्व माथी २, १, ३,
 ५४, हिथी ७, १, ७३^१, वाय ४,
 १७, २, १, ण्णुध्वेधाम् वीथी ६,
 २४ १८, वैथी १४, ५ ११,
 ण्णुध्वस्व काथी २, ४, २२,
 १९, ३, १२, आपथी १, ११,
 १०×४, वीथी, ण्णुध्वत् १,
 ११, १०^१, हिथी १, ३, १३, १७^१.
 ण्णुध्वि आपम २, १, ७, वाय
 १, १७, १६, १८, ५, वाय,
 शुध्व्यु अथल ६, २^१
 शुध्वते वीथी २९, ८ : १४^३,
 वाय ३, ५७, ५८^१, २५, ६, वीथ,
 शुध्वति निम् २, ८ : २३, २९,
 ३६, आसिष्ट, शुध्वन्नि आसिष्ट
 २, ७ ८ : १६, वाय ३, ६०,
 वाय, ण्णुध्वन्ताम् वैथ १, २१
 ६^१, वीथ ३, ८, १६, ण्णुध्वस्व
 हिथी १, ४, ४४, ण्णुध्वध्वम्
 वैथी ४, ७ : १६, हिथी १, ५,
 ७३, शुध्वेत् वाय ३, ५९, १८,
 १६, शय ४४२^१, शुध्वेत् शय
 ३४८×४, विष, शुध्वेश्व वाय
 ४, २४, विष ६२, ९, वीथ १४,
 ६, शुध्वेषु क्त् ३, ३, १०, विष
 ३५, ६
 शुध्वधन्तु^१ माथी ६, १३, १९,
 ८, १२, ६
 शोधयते वीथी २७, ६ २५
 शोधयति वैथी २, ५ १२, वैथ
 ३, १५ १७, वैथ ३, ३, १०३

ण्णोधय आपथी १०, ३०, १५,
 वीथी ६, १० : १९×४, माथी,
 शोधयेत् वैथ ३, १८ : ३, वाय
 २७, १३, शय २६४, वीथ,
 शोधयते विष २२, १९,
 शुध्, द्वा- -द्वाः शोधो १, १, १९,
 वीथी, -द्वम् शोधो ७, १५, १९,
 काथी २५ १, १८^१, आपथी,
 -द्वया वैथी १, २, ३, -द्वस्य
 निम् २, ३ : २४, -द्वा शंघ
 ७३, आपथ १, १९, ७, विष २२,
 ७३, विष, -द्वा ण्णोधयथी १,
 २, ८, ११, १०, ७, १८, १०, २,
 ३, २२, वीथी, -द्वाय वैथी १,
 ७ : ५, -द्वायाम् वैथ ३, ६, ९,
 -द्वायि वैथ १, ११ : २१^१,
 -द्वायि वैथ १, ८ : २, -द्वे
 आसिष्ट २, ४, ७ : १४, ७, ११
 ५, वैथ, -द्वेन कौथ १, ६, ३,
 वाय १, ९, १८, वैथ, -द्वेषु
 बाथीस ३म् : ८, -द्वे वैथ ३,
 ८, १, -द्वौ वैथि २९४
 शुध्-ध्व- -ध्वे सु ३, १
 शुध्-ध्वेत् (ल-ध्व) मिसवृत्-
 -त्तम् क्त् ३, २, ३
 शुध्-जलाशय- -ध्वे आसिष्ट २,
 ४, ५ : ४, ५, ६ २८, ७, ८ : ८
 शुध्-वत्, -द्वस्- पा ५, ४,
 १४५
 शुध् वेत्- -व वैथीन ४७
 शुध् द्रव्य^१ - -व्यम् वैथी १२,
 ४ : ३
 शुध्-वक्ष^१ - -वक्ष्य द्वाथी १०,
 १, १, काय १५, २, ३१, २, ४०,
 १, ४३, ४, -क्षे शोधो २, १, ८,

४, १७, ३, ५, २, ४, वाय ५, २,
 २.
 शुध्-यत्- -यौ सु १४, १
 शुध्-मानस^१ - -सा आसिष्ट ३,
 १०, ४ : ११.
 शुध्-यत् (व >) ती^१ - -ती वाय
 २३, ३९, -तीमि सुभय ८७
 १०, -त्यः वाय २६, ५, २८,
 ११, शंघ १०५, वीथ ४, ३, ७,
 विष ५६, ५
 ण्णुध्-वाल^१ - -ल शुभ्रा ६, २६
 शुध्-वासय^१ - -सा आसिष्ट २,
 ४, ४ ४
 ण्णुध्-वत् (स्व >) स्ता^१ - -स्ता
 कौम् ७३, १
 शुद्धा (द्व-ध्व) क्षर- > शौद्धा-
 क्षर^१ - -ता क्त् ४, ८९.
 शौद्धाक्षर सधि- >
 ष्वस्व^१ - -व्यम् श्रापा ११, ४३
 शौद्धाक्षरा (स्-भा) गम-
 -म् श्रापा १०, २१.
 शुद्धा (द्व-भा) तन्म^१ - -त्वनाम्
 शंघ १०४, -त्ता आसिष्ट ३,
 १०, ४ : ३, श्राप ६२, २, ४, शंघ
 १०१, -त्वान् अय २१, १, ८,
 ७०, २, ३, -त्वानम् आसिष्ट २,
 ४, ७ : ११
 शुद्धा (द्व-ध्व) ल- -ध्वम् आसिष्ट
 २, ५, ६ : ८
 शुद्धा (द्व-ध्व) भाव- -ध्वे वैथ ३,
 ११, ७
 शुद्धा (द्व-ध्व) मृत-व (ह >) हा-
 -दा वैथ १, १४ १३.
 शुद्धा (द्व-ध्व) म्पर-वेप^१ - -य.
 वैथ ३, ३ ३

a) पामे वेप १ शुध्वधन्तु टि. द । b) शुध्व इति पाठ ? पनि शोध (ह आपथी १०, ६, १) ।
 c) वस । d) = शुध्वत् वप- । e) [नागविशयो] दस । f) = [शुध्वत् वप-] क्त् (क ८, १५, ७-९) ।
 g) वैप १ द । h) तद्विदमिषः म्प्र प्र । i) तन्वत्तार्थे वप प्र । j) वस > वत् ।

√शुदाय° > √शुदायु° -
 -०शुघ. आषाढी ७, १८, ४, वीथी
 ४, ६ ४५, भाषी ७, १३, ११,
 तैसा ३, २
 शुदा(इ अ)थं-वत्- -यान् वैष
 ३, १, १२
 शुदायांक- वी वीसा २९४
 शुदा(इ-अ)शुद-> शीय°-
 -यम् तुम् १, २ २१, २, १५
 १, ३, ७ १३, निम् ५, ९ १५,
 -यस्य निम् ८, १३ ४१, -ये
 पाथ २८, १४
 शुद्धो(इ-ओ)वत्- -वा
 वाघुषी ४, १०८ १६
 शुद्धो(इ-उ)वत्- कम् आसिष्ट
 ३, ३, २ २४, २५, वीपि २,
 १, १५
 शुद्धो(इ-ओ)दन-> न-पाथ
 स शुद्धोदन दध्योदन-भौदिक-
 चित्रोदन-नृसर मापोदन कपो
 दन- -नाथि वैष्ट ४, १३ १४
 शुद्धो(इ-ओ)वधि- -धि वैथी
 १२, ४ २
 शुद्धि- इये अण ६९, ८, ३, -दि
 वैष्ट ३ १६ ४, ७, ५ ५, ८,
 अण, -क्षिम् वाप ४, २०, २५
 १, अण, -क्षे विप २२, १३,
 -क्षी अण ४८, ३६
 शुद्धि-कर्त्- तुंणि विप २२,
 ८८
 शुद्धि काम- म आषी २, १२,
 ६, वैथी २ ८ १०, वाप २६,

१५, -मस्य अण १७ २
 शुद्धि हेतु- तुना अण ४२, २,
 ८
 शुद्धय(दि-अ)थं- -थंम् अण ३२
 १, १, -थंरथ मा १२, २६
 -थं काषी २८ १२, -थं
 निम् ९, ३ १८, २१, १०, ७
 ३५
 शुद्धय(दि-अ)शुद्धि- वी वैष
 १, ९, ६
 शुन्धान- ने आषाढ १, ३०, १९,
 द्विप १, ८, २२
 शुन्घनी- नी वीथी ४, ४
 १०*
 शुन्घ्यु, श्च्यु°- पाठ ३, २०,
 -श्च्यु शाषी ६, १२, २१°,
 २२, वैथी १३ १७°, शाषी ४, ३,
 १०°, शाषी २, २, १९°, वा ४,
 १६, -श्च्यु वा ४, १६, १६,
 -श्च्युवम् शाषी १२, १०, १२,
 अण २ ७, ८८, -श्च्यु वीथी
 ६, २९ १४°, १३, ३८ ८,
 वैथी १४, १२ १३°, द्विथी ७,
 ७, ३४°, आसिष्ट २, ५, १० १८
 शुन्घसत्त्व-> पत्तय वर- श
 निम् ७, ७ २८, ९, ३ १७
 शुन्घसत्त्व स्व- नकार निम्
 ७, ७ ४१
 शुन्घसत्त्व सत्र- जम् निम् १०,
 ७ ३४
 शोचन- नम् काषी ६, १, १८,
 वैष्ट ५, १३ ७, वाप २५, १२,

वाप १६३, २६१, वाप २७७
 ११, -वाय वा ४, १६
 शोचनी- -०नि जैष्ट १, १८
 ७
 शोचयिषा वीथी २ ८ १९, वैष्ट
 शोच, ५वा- -१वम् विप २२, ११,
 -२वे जण ४२, २, ८
 शुचि- (> √शुधीय पा) पाथ ३,
 १, १२
 √शुन् पाथा हुदा पर गती
 शुन्- पाथ ४, १, ११०**,
 -न आषी २, २०, ३१°, अण ४३,
 ४, १३°, वृदे ५ ८, वा ९,
 ४०, -शंम् आषी २, २०,
 ४°, शाषी ३, १८, ४, १६,
 काषी १७ २, ३१, वीथी, आषाढ
 २, ८, ३° कौष्ट २ ६, ७, ३,
 १३, १०, आसिष्ट १, ३, ४ १°.
 माष्ट २ २१ १७°, द्विष्ट १, १०,
 ६°, अण ४८, ६४°, विप ३,
 ६°, -नाथ अण २, ४, ५७
 शुन्कुरि- रि पाष्ट, १७ १५
 शुन्-रे(व>)वी- -नी वृदे ५ ७
 शुन् होत्र- -त्र अण २, ६, ३३
 शौनहोत्र- -०त्र आषी १२,
 १०, १३, -त्र अण २, २, १,
 वृदे २, ४०, ४, ७८
 शुना लीरि- -न आषी २, २०, ३,
 -म् आषी २, २०, ४°*, वृदे
 ५ ८, -शंम् वैताषी ९, २७,
 आसिष्ट ३, ८, २ ७, अण ३, ४,
 १, अण ३, १७°, -रानि कौम्

a) वैष १३ । b) = साम-निशेष । c) व्यप । d) वत् । e) सवा शुन्घ्यु (वै १, २, १२ वा ३, ४, ८ च) <> शुन्घ्यु (मा ५ १२ का ५, ८, २ तै १, ३, ३, १ ष) इति पाठे । f) शु पाथम् । g) कचित् वा विधि । h) पाठे वैष १ वि ४ ६, ३ दि ३ । i) = तुल- । j) नाप (वीतागोष् देवता-) । क्यु १ = शुन्घरि- इति १ MW । k) विप (शुन्घदेवता-न कम्) । वत् । l) वैष १ निर्दिष्टानां पदानां द । m) तु अण । BI ४ इति अष्ट पाठ । n) सवा क ४, ५, ५ आषी २, २०, ४ प्रथ शौ इति पाठे । o) = युगलक्षण ।

१०६, ८, -राज्यात् काश्री ५,
 ११, ४, २९, अत्र २, ४, ५७,
 -राय काश्री ३, १८, १५१,
 काश्री ५, ११, ४, वापश्री, -री
 काश्री २, २०, ३, अप १, ४१,
 ४१, अत्रा ११, ४१, वदे १,
 ११४, ५, ८, १, निप ५, ३१, या
 २७, ४००, -१०री काश्री २ २०,
 ४, काश्री ३, १८, ४, १४,
 आक्षिप ३, ८, २, ८, बीनि
 १, १५: १८, या २, ४१.
 शौनासीर्यं- -वं निरु १०,
 ८ ९, -वैभ्यः लाश्री १०, ११,
 ७
 षुनासीरि- -री काश्री
 ३, १८, १५, आपश्री ८, २०, ५
 शुनासीरीय, वा०- पा ४, २,
 ३२, -य वाश्री १४, ९, २, बीश्री
 १४, ६०: १६, -यम् शाश्री
 १४, ९, १, १५, १२, १०, काश्री
 ५, ११, १, १८, १५, १,
 १०, आपश्री १८, ५, ५, दिश्री,
 -यया आश्री २, २०, १, -यस्य
 आपश्री ८, २०, ५, २२, ९,
 १, दिश्री १४, ३, ३४, -या.
 आवाश्री २०, १५, ३, दिश्री
 १४, ३, १८, -यान् काश्री १५,
 १, १६, बीश्री २४, १० ३
 ४, -यान् बीश्री १५, १२ १,
 -यावा. ०१ काश्री २, २, २२,
 -ये शाश्री १४, १, ७, दिश्री ६,
 ८, ८, १४, ४, १, -वेण आश्री
 १२, ४, १, काश्री ५, ११, १६,

आपश्री ८, २०, १, २१, ६, ४, ४,
 बीश्री.
 शुनासीरीय-यस्य- -रुव
 बीश्री २१, ६, ९, -रुवा बीश्री
 २१, ६: ११; २५, १: २, ५, १४.
 शुनासीरीय स्थान- -वे
 काश्री २२, ७, १०, काश्री २८
 २३.
 शुनासीरीय हविस्-
 -विभिः बीश्री ५, १८ १, १२, ३:
 १३, १४, २०: १६, बीश्री २, १२
 ८, -विष्णु बीश्री २१, ६: ११,
 -वीषि वापश्री २२, ९, ३, बीश्री
 ५, १८ २७, १५, १२: २, ४, ४
 शुनासीरीय शीर्ष- पा ४, २,
 ३२, -वी काश्री ३, १८, ३, काश्री १४
 २८ २३, -वीम् काश्री ३, १८,
 १७, २०, काश्री ४, ५, माश्री
 १, ७, ८, १, १८, ५, १, ४,
 २६, वाश्री, निरु ४, ३ ३०,
 -यस्य बीश्री २८, १२ १६,
 लाश्री ८, ८, ४, निरु ३, ३:
 १२, माश्री १, ४, १६: -यादि
 बीश्री २८, १२ १५, -यादि
 माश्री १, ७, ८, १४, -ये शाश्री
 ३, १८, १, काश्री २२: ११,
 १३, माश्री १, ५, २, ५, ५, २,
 ७, ८, वाश्री, -येण काश्री
 ४, ५, भाश्री ८, २३, १, २, ४, ६,
 वाश्री १, ७, ५, ६.
 शुनासीरीय हविस्- -वीषि
 काश्री २२ ११.
 रशुनक-> १शुनक- पाठ २, ३२,

-१०कं आपमं २, १६, ३, ९,
 पाठ १, १६, २, ४; माश्री २, ७:
 १२; १७, हिप २, ७, ९, -क
 अप ७०, ७, ५
 शुना(न-आ)दि- -रिभ्य आक्षिप
 २, ६, ७: ६.
 शुनाय(दि-भ)वलीठ- -वे
 आक्षिप २, ७, ८: १५
 शुन १ शंभ ११६: १६.
 शुनक- (> १शौनक- वा) पाठ ४,
 १, १०, ४.
 रशुनक- रशुन- ८.
 रशुनक- पाठ ४, १, १०, ४, -का
 आपश्री २४, ६, ३, बीश्री ९
 १, ३, हिश्री २१, ३, ७, -कलाप
 आश्री ३, ९, ६, १२, १०, १३,
 वैष ४, २, ७
 रशौनक- पा ४, १, १०, ४, पाठ
 ४, ३, १०, ६, -०क बीश्री ९
 ४, वैष ४, २, ७, -क वाश्री
 १२, ८, ३५, १०, २, शाश्री,
 -कम् आप ३, ४, ४, ४, ४, २,
 ५, ३, अप २५, १, १, ३, १, १,
 बीष २, ५, २, ७, -कस्य अप ६२,
 १, ६, आप ३ २, शुना ४, १२, ३,
 शौष १, ८, -का. ० व्यु ४:
 २, शौषि ६, -कस्य आश्री १२,
 १५, १, ४, अप ६८, ३, ३, व्यु
 २: २८, उरु ८, ३, ३, -कस्य
 ३-काय आप ४, ८, ४, -के अत्रा
 १, १, ४, -केन अप २३, १, ४,
 ५२, १, २, ५, ८, ३, ११, वदे ८,
 १९

a) पाठे. घृ २४१३ ङ दि. द । b) विष । तस्येदमीप. ष्यः प्र. उरु (पावा ४, १, ८५) ।
 c) वैष इ द । d) इष्टि-विशेष- । e) = पर्व-विशेष- । f) परस्परं पाठे । g) माश्री पाठ ।
 h) 'वाश्री' इति पाठ । i) 'वैष' इति ङ. ० । j) < √शुन् इति । k) = चालप्रद विशेष- । l) = आपश्री-
 विशेष- (उ सप्त मा १८, ३०-४३) । m) = रशुनक- । n) व्यु. (प्रवि-) । वैष २, ३, ४ ।
 o) बहु. < रशौनक- । p) सप्त शंभ ४, १०, ३ शौनकिम् इति पाठे । q) = अथर्ववेदीयसायान- वा तदन्वये- वा ।

शौनकी^१ - की तु ३, १.
 शौनक-प्रश्न- -श. आपथी
 ३, १७, १२, वैताथी ४३, २५,
 -जे शीथी ३, १०, ७.
 शौनका(क.वा)दि- -द्वयः
 शैशि २३०, वाशि २, ७७, -दिमि
 अप २२, १, ५, घृदे ५, २९.
 शौनकिन्- पा ४, ३, १०६,
 -मिनम् अप २, ४, १, -किनाम्
 कौम् ८५, ८.
 शौनकायन^२ - पा ४, १, १०२,
 -नाः शौथीत्र ३-३.
 शौनकि^३ - -किम् शाप ४, १०,
 ३०, अप ४३, ४, ५३.
 शौनकेय^४ - -या. अप २३, १०,
 ५
 शुनक-धोत्रय- पाग ६, २, ३७.
 शुनकन्व शौथीत्र ९, ४, वैष ४,
 ३, ७.
 शुनक-यसिष्ठ- -शौ शौथीत्र १ : ५
 शुन. पुच्छ- प्रश्. धन्- द्र.
 शुन-होत्र- प्रश्. √शुन् द्र.
 रशुनि^५ - -निम् शौथी १७, ४१, १५१^६.
 रशुनि^६ - (>शुनि-श-).
 √शुन्च्, शुन्धन- प्रश्. √शुच् द्र
 शुन्ध- खन्- द्र.
 √शुम्,म्म्^७ पाया भ्वा पर भाषणे,
 भास्ते इत्येके, हिंसावामित्यन्ये,
 दीप्ती L √शुच् इत्येव J च, तुदा.
 पर. शोभायै, शोभते पाठ, १५१^६
 शोभासम् जेय १, १८ १४१^६
 शुम्भति अप ४८, ३५१^६, शुम्भ-
 न्वाम् अत्र १८, ४, अपं ३ २२

शुम्भस्व आथी २, ५, ९,
 आपथी, शुम्भपरम् वैथी ४,
 ७ : १६; दिथी १, ५, ७३.
 शुम्भोभय शौथी १७, ४२ : २,
 आपनं २, ८, ९, आमिथ १, ३,
 ५ : ५, माथ.
 शुम्- शुभ सुदे ५, ८४, ७, ४३,
 शुम्भः आथी ५, ५, १२,
 आपथी १९, २, १९, शौथी,
 शुम्भम् आमिथ २, ५, १० :
 ३१, अप ४८, ७५, निप १,
 १२, शुम्भा आथी ६, ६, १४,
 ७, ३, ३, ७, ५ x x, शौथी
 शुम्भन्-वायन्^८ - -यान आपथी
 १४, १६, १, दिथी १५, ५, १,
 अयाय ६, १
 शुम्भ, मा^९ - -म. वय १, ३, ८,
 २, ५, १३, -मन्^१ आपथी २३,
 ७, ८, दिथी १८, ३, ३, तु ३१,
 २, शुम्भ २, १, २३, ४, दिथ
 १, ११, ४१^{१०}, अप, पा १, ४, ५७,
 -मस्व अप २६, ५, ९, -मा
 काण्ट ४० : १९, अप २६, ४,
 २; ३०, १, ३, -मा अप २४,
 १, ७, २६, ५ ५ x x, -मात्
 कौशि ४३, -मात् अप ५, २,
 ५, ६८, ४, ५, ५, २३, वैष ३,
 १५, १३, -भाम् अप ८, २, ३,
 २३, ४, २, ३९, १, ८ x x, अथा,
 -भावाम् अप २२, १, ४, ५९,
 १, ६, -भे वैष ३, १० ४, १९
 २, अप ५, ४, ३, १९, १, ४ x x,
 -०भे अथा १, २, ३, ४, -भेपु

अप ५२, १, २०; -भी अप
 २६, ४, ६, ६८, १, २१ x x;
 शंभ ४४८, विप १, ४३, -भी
 अप १, ४१, ४.
 शुभं यु- पा ५, ३, १४०
 शुभ-कर्मन्- -भे वैष ६, २, १६,
 ७, ८ : १०.
 शुभ-कारणो(स्य-उ)पदेदि-
 (व>)नी^{११} - -नीम् अप १,
 ५०, ३.
 शुभ-काम- -मः कौश ७७, ५.
 शुभ-कार्य- -भम् वैष ७, ८१८,
 -भे वैष ७, ७ १०
 शुभ-हृत्- -हृत् अप २९, २, ४
 शुभ अला(ल-आ)व(द>)
 हा^{१२} - -हाः अप ६८, १, ३०
 शुभ वर- -रम् कौश ३, १२, ७
 शुभ-नक्षत्र तिथि- -विपु अप
 २३, ४, २
 शुभ प्रद- -दा अप ६४, १०, १
 शुभ पलो(ल-उ)दय^{१३} - -यान्
 अप ६८, १, ५३
 शुभ(भ-ल)क्ष^{१४} - -क्षेपु वैष ४,
 १४ : १६
 शुभा(भ-अ)नन, ना^{१५} - -नम्
 आमिथ २, ३, ३ : ८, -०ने
 विप १, ३२
 शुभा(भ अ)तुलोम^{१६} - मा
 गीथि १, २, ४११^६
 शुभा(भ-अ)र्ध->शुभाधिद-
 -धिभि अप ७०^६, ११, १
 शुभा(भ-अ)वह- -हा अप
 २१, २, ३, ६३, ४, ९

a) = क्तिता-। b) वैषु अत्र. < शौनक- इति। c) अथत्वायै हम् प्र (वैतु अत्र < शौनक- इति)। d) माने ष्ट २४१४ p टि द्र। e) अथत्वायै हम् प्र (पा ४, १, १२३)। f) = शुन-। g) फामे वैष १ क्षि ४, ६, ३ टि द्र। h) ष्ट १९६० ० टि. वनि सत्प्रासको द्र.। i) पा १, ३, ११, ३, १, ५५ पराश्र द्र.। j) वैष १ द.। k) निप, नाप। l) कथित् वा लिपि। m) फामे, ष्ट २२९५ d द्र। n) फर, > उम,। o) कप > वर,। p) उप = नक्षत्र-। q) वय। r) कत।

शुम्भा(नञ्)शुम्भ- भाम् आसिष्ट
२, ५, १ ५६, ५७, वैष्ट, -भाम्
अप ५९, १, १, -भानि अप
५३, १, १, आञ्चो ७, २३,
-भाय वप ५८, १, २, -भे
आसिष्ट २ ५, १ ६.

शुम्भाशुम्भ-निषेद्ध- द्वादि
वाञ्चो ७, ३

शुम्भाशुम्भ निषेधन- ने
अप ७०^१, १, २

शुम्भाशुम्भ निषेद्ध- कम्
अप ६८, १, १

शुम्भाशुम्भ स्थित- -भम् वप
७०, ८, १

शुम्भाशुम्भा(भ श्)र्धे- र्धम्
अप ६३, १, ६, ६४, १, ५

शुम्भ(भ क्>)भिका^१- -भके
बौधो १७, ४२ १, आप्तम् २,
८, २, आसिष्ट १ ३, ५ ४, भाष्ट

शुम्भे(भ द्)ञ्ज- -ञ्जया अप
१९^१ ५ ८

शुम्भयत्- वदि साधो ५, १०,
८, साधो ८ ६, १७

शुम्भित- -तम् साधो ४, १२, २,
आसिष्ट २ ३, ५ २२

शुम्भे^१ क्त्वा ८ २५^१

शुम्भ आ^१- पाठ २, १३, पापम्
४४^१ -अम् वैधो २६ १३,

पाष्ट २, २, ११, बौध २ ५ ७^१,
अप ६ १ ६, ७, २२, ७, ५ -श्रमा

साधो ८, १२, ४, साधो १०,
१२ ८, वप २ १०, ४९, श्रम
२ ७, ६८, -श्रमा साधो ३

५, ११ ८, २३, १ बौध १०३,

२, वा १२, ४३^१, -भानि अप
६, १, ६, ६८, १, ३४, -भाम्

विध १, २२, -भाम् वप १,
१, १४, -भे अप १८, १, ६,

१९^१, १, ४, या ९, ३१^१^१, क्त्वा
७, ३४^१, -भै अप ४, २, १५,

१९^१, ३, २, ४, ६८, ५, २१

शुम्भ ता- -भाम् विध १, ३६
शुम्भ-वत्^१, शुम्भ-वत्^१- वा
५, ४, १४५

शुम्भ(म्भ)भ्रा-वत्- -वता तप
९, १७^१.

शुम्भ^१- -भुषु भासि २१^१

शुम्भ(न)नी^१- नी नीम्
३२, ३, ७८, १०, अप ३२,
१, ३१x, अप, -भ्या ङीम्

७८ १३, ७२, २५

शुम्भमा(न)ना- -ना या ८,
१०^१^१

शुम्भिपमा(ण)णा- -णा वा
८, १०

शुम्भ^१- -भ जैष्ट १, १८, १४,
-भे क्त्वा १६, ३५^१

शुम्भ, ना^१- पाप ३, १, १३४, -भ
वप ७०^१, १, १, -भम् साधो

७, ७, ३, काष्ट ३, १०^१, माष्ट
१, २, १७, भाष्ट, -ना अप २३,

३, २^१, ५९, १, १०^१, -ना
साधो १०, ७, ३, ४, साधो १६,

२, ११, भाष्ट २, १०, ८^१, अप
६४, १, १०, -नाम् साधो १६,

३, ८, -नासि आसिष्ट १, ६, १
७, -नासि या २, २४, -भे
अप ४८, ३५, या ९ ३१, आञ्चो

५, ४, -भे अवा १, ३, ४, ३,
२, ३, ५, ५, ३, ६, -भै अप

१९^१, ३, २, -भौ मासि १५, ३,
वैसि १६२, यासि १, २७

शुम्भमान- -भम् हिधो ७, २, ६१^१,
-ना या १२, ४३

शुम्भय(म्भ)नी^१- -नी बौधो
१७, ४२, १, आप्तम् २, ८, १,

आसिष्ट १, ३, ५ ४, भाष्ट
शुम्भा- -भाम् अप १९^१, ३, ४

शुम्भित- -ते कौष्ट ३, २, १५

शुम्भ- √शुम् द्र
शुम्भ^१- पाप ४, १, १८^१, १५४

शुम्भायन- वा ४, १, १८

शुम्भायन्य- वा ५, ३, ११३

शुम्भायनि- वा ४, १, १५४

शुम्भया^१- (>शुम्भायन- वा)
पाप ४, १, १८

शुम्भं-यु- शुम्भ कर्मन्- प्रष्ट √शुम्
द्र

शुम्भाक- पाठना ४, १६

शुम्भानन- प्रष्ट, शुम्भ- √शुम् द्र
शुम्भ^१- पाप ४, १, १२३, १५१

शुम्भायन- (>शुम्भा- वा)
पाप ४, २, ५४

शुम्भेय- वा ४, १, १२३, वा, पाप
५, ३, ११७^१, पाप ४, १, १७६,

-वा बौधो २७ ७
शुम्भेवी- वा ४, १, १७६
शुम्भ- वा ४, १, १५१

शुम्भि- पाठ ४, ६५
√शुम्भ, शुम्भनी- प्रष्ट √शुम् द्र
शुम्भ(म्भ)म्भा^१- (>शुम्भायन-
वा) पाप ४, १, १८

१) नाप (सम्) । २) वैष १ द्र । ३) वप । ४) पापे वैष १ द्र । ५) वैष २, ३४ द्र ।
६) = तपसा तैसा २, ४, ४, ८ । ७) ऋ १, २९, १७ तु शुम्भित् दति पापे । ८) = शोभा । ९) नाप (स्तोत्र) । वैष
१, २११८ द्र । १०) भावे वर्तते च प्र । ११) पापे वैष १, १०९९ द्र । १२) व्यप । १३) शुम्भ- इति
शेखर (तु पापम्) । १४) = आशुष्योनिस्तपविधेय ।

शु-यापिन्- शु. द्र.

शुलुम्- -रुवाः आधी ९, ७, १६;
आधी १४, १६, १०; अण ४८,
११५; निग ४, ३; या ६, १६६;
१०, ४९; १२, १८६.

√शुल् पाषा. घुरा. पर. अतिस्पन्ने.

शुल्क- पाठमो २, २, ६; पाग २, ४,
११०; -लकः शेष २५५; शेष
१, १०, १३; ११, २१; गौष १०,
२५; -लकम् शेष ४, ११; ७९,
१७; शेष २९६; ३३२; आपयः
-लकाय शेषि ९२१; -लके
वाय १९, ३७; काय २८१;
७; -लकेन काय २८१; ५; शेष
१, ११, २१.

शौल्क- -लकेन माण १, ७, ११;
वाय १०, ११.

शौल्क- -काः विष ५, १३२.

शुल्क-दे(ग>)वा- -यापाः काय
१६, १.

शुल्क-रथान- -नाय विष ३, ३१.

शुल्कां(लक-शे)श- -वाय विष ३,
२९.

शुल्का शैति २१.

√शुल् पाषा. घुरा. पर. माने,
वर्जने.

शुल्का, ल्व^१ - पाठमो २, २, २२३;
पाग २, ४, ३१०; -लकम् आपधी
१, ४, १०; ५, १३; काठधी ३;
१२; शौधी; वाय १४, २५;
-लकस्य शौधी २०, २; २५;
११; १३; -लकाय आपधी १,
६, ६; काठधी ३; १२; माधी
१, ६, ८, माधी १, १, ३,

३; वाधी १, २, २, ३; -लवानि
आपधी २४, २, १७; माधी
१, ४, ७; -लके आपधी १, ६,
१; माधी १, १, १, ४२; वाधी
१, २, १, २३; शौधी ३, ४; १४;
शिधी १, २, ४७; ६६; आशियः
-लकेन आशिय ३, ६, १; ८;
२६; ३; ३३; ८, ३; ३६; शौषि;
-लकेषु आपधी १७, २६, २.

शौ(लक>)धी- -ल्यो वायु ७,
३९.

शुल्क-श- -शैः वायु ७, ९.

शुल्क-प्रभृति- -तिना माधी २, २,
२, २; -लोन् शौधी २१, १३;
२; २३; १४; १०; २५; ९.

शुल्क-विद्- -विद वायु ७, ३.

शुल्क-सप्तय- -यम् वायु ७, ३१.

शुल्का(लक-अ)- -लम् काठधी
३, १२.

शुल्का(लक-अ)र्थ- -र्थे माधी १, १,
३, ४२.

शुलुम्->शौलवान- -नः शुल
४, १८८.

शुल्ल- पाठना ४, ११८.

शुलुचान- √शुल् (वा.) द्र.

शुलुल्लत्- प्रभ. √शुप् द्र.

शुलुमिपमाण- √शुल् द्र.

शुधी- -श्रीम् शौषि १, ४; ७.

शुधुवत्- शुधूपमाण- शुधुपा-
प्रभ. √शु (प्रत्यये) द्र.

√शुप् पाषा. दिवा. पर. शोषणे,
शुष्यते अण ६८, १, १२; २६,
शुष्यति विष ५, १; २१; वाय
३६, १०, २; ५०, १, ३; शुष्यन्ते।

अण ७०^१, ८, ४; शुष्यन्ति अण
१, ६, ४, ५७, १, ६, ७०^२, ७, २४.
शोषयति विष २०, ५१; या २,
२४; शोषयेद् अण ५०, ४, १;
शेष १५९; १; ३६९; विष
९५, १; माधि १६, ११.

शुष्क, पान- पाठ ३, ४१; वा ६, १,
२०६; ८, २, ५१ पाग २, ४,
३१; ५, २, ९७^३; -लकः आपधी
१८, २२, २; वायुधी २, १६; ८;
-लकम् शौधी १, ६, ६; १४, २६,
८; आपधी २४, १३, ११;
काठधी २; शौधी; -लकस्य शौधी
४, १०; २९; माधी ७, २३, २;
शौधी; -लकः आपधी १, ५, ९;
माधी १, ५, ६; शौधी, -लकानाम्
शेष १७६; -लकानि अण २६,
४, ६; -लकम् आपधी २०, २५,
१४; शिधी १४, ६, २५; जण २१,
१, २; -लकम् शौधी २, १, १,
४१; अण ६८, १, १४; वाय १, २,
१२; -लके आपधी ८, १८,
९, ११, १३, १; शौधी ५, १७;
५; २१, ६; ५; शिधी, -लकेन
शौषि ८०, २०; शेष ४६३;
-लकेषु शौधी ५, ४, १३; -लके
अण २६, ४, ६^२.

शुष्क-गुल्लम-गुल्ल-लता- -लः
अण ६८, १, १४.

शुष्क-शौषम- -यम् वा ७, २३;
-शैः आशिय ३, ७, ३; १४;
शौषि २, १, ७.

शुष्क-शैलवा(ल-आ)दि-
-दिभिः अण ६४, ४, १.

a) शैव १ द्र. b) ३ २४०८ ० द्र. c) ललोदमित्तवै अण द्र. d) माय. 1
नियुक्तशौषय् उक्त् प्र. (पा ४, ४, ६९) 1
e) द्र. BPG. 1 f) काठधी. वाय. पाठः 1
g) नाव. (सूत्र, रज्जु-प्रश्न) 1 h) उप. <√विद् (माने) 1 i) = शोषयि-विधेय- 1 j) १ १९०९ अ
द्र. 1

शुष्क-रति^० -रतिः आपथी १८,
२१, १७; वाथी ३, १, ४, ४६;
द्विथी १३, ७, २५; -रतिम् वीथी
१२, १९; १३.
शुष्क-पाद^० -पदः वैध २, १४,
१४.
शुष्क-वैपम् पा ३, ४, ३५.
शुष्क-भृङ्गार^० > शुष्कभृङ्गा-
रीय^० -यम् शांथी १७, ७, १३.
शुष्क-मांस- -सम् विध ५१,
२८.
शुष्क-ल- पा ५, २, १७.
शुष्क-विरोह- -हे अप ७२, ३,
११.
शुष्क-दाखा->°खिन्- -खिनः
अप ७२, ३, ९.
शुष्क-शुक्ति-मल-वल्बज-रुहण-
सल्लृण- -वर्षम् वीथी २८,
१३; १२.
शुष्का (क्-अ)प्र, प्रा^० -प्रम्
माथी ७, १, ८; द्विथी ४, १, १५;
-प्रया आपथी ७, १२, ६;
-प्राम् आपथी १, १, ९; द्विथी
१, २, ९.
शुष्का (क्-अ)दि- -विधु
आपथी २, २०, ८.
शुष्का (क्-अ)स- -वेन वम ३,
५, १.
शुष्का (क्-अ)भिषव- -वः
वीथी २५, २२; ७.
शुष्का (क्-आ)द्रे- -द्रंथोः आपथी
७, २७, १५.
शुष्काद्रै-सधि- -थी काथी
६, १०, ३.

शुष्कै (क्-ए)घ^० -घा या २,
१८; कौशि ५८.
शुम्ब- -म्बः आसि २, ५, ११; ६.
शोप- -पम् सु ४, ३; -पाव शांथी
४, ५, ११^०.
शोप-पाक- -काम्पाय काशु ७,
३०; वीशु ७; ४.
शोप-विकार- -राः अप ६४,
६, ३.
शोपण- -णेन माथी ४, १, २१; -णेः
या २, २४.
शोपयत्- -यम् वैध ३, ५, १४.
शोपयितृ- -तृः या ५, १६.
शोपयित्तु- पाठना ३, २९.
शोपयिष्या कौसू १९, ८.
शुपि^० > शुपि-र- पाठ १, ५१६; पा
५, २, १०७.
शुपिल- पाठ १, ५६.
शुष्क- प्रथ. √शुप् द.
शुष्ण^० -पाठ ३, १२; -ष्णम् अप ४८,
१०३^०; निघ २, ९^०; या ३,
११; ६, १९^०; -ष्णस्य या ५,
१६^०; -ष्णाथ श्यपा ७, २४^०
शुष्म, प्मा^० -पाठ १, १४४; -ष्मः
शांथी ६, १०, ७; माथी ५, १,
७, २; तैमा ११, १६; -ष्मम्
अप ४८, १०३^०; निघ २, ९^०;
या २, २४^०; -ष्मा अथ ४,
४^०; -ष्मात् आपथी १५,
१७, ५; वीथी ९, १७; २६;
माथी; या ३, २१; १०, १०^०;
-ष्माथ आपथी २, ७, ७^०;
आपथी ५, १३, ४; वीथी
२, १७; १८x४; वाथी;

-ष्मासः अथ २, ९, ५०^०;
-ष्मे वीथी १०, ४८; २८^०;
-ष्मणे वीथी ६, १५; १७;
आपथं २, ५, ११^०; -ष्मेभिः
वृत् २, १२७; या २, २४^०;
-ष्मैः आपथी ३, ७, १३^०; या
२, २४.
शुष्मिद्- -मिणः आपथं २, १५,
१५; आ १, १६, ५; वीथ,
-मिणे वीथी २, १०; ११; वीथ
२, ११, २०; -ष्मिद् आपथी
८, ९, २; वीथी ५, ८; १; -ष्मी
शांथी १८, ५, १;
शुष्मिणी- -मी आथी ३,
९, ४; आपथी १९, ३, ४; द्विथी
१३, ८, २९; शुभा २, ४०.
शुष्मिन्-वम- -सम् आथी ७,
४, ३; वैताथी २७, २५; ३१,
२२; अथ २०, २०; ५७.
शुष्प- √शुप् द.
शुष्प्यदा^० -प्रथय १, ४^०.
शू^० > √शू > शू-कार^० -ताव
शुभा ५, २४^०.
शू-कृत^० -ताव शुभा ५, ३७^०.
शूक^० -पाठगो २, २, ३; पाप २, ४,
३१.
शूक-वृण^० > ण-शर-शीयं वल्ब-
ज-मुल-मल-शुष्क-वर्षम् रोठ
१, ५, १९.
शूकर^० -राः ताथ ६, २७.
शूकराह वैध २, ५; ७.
शूक्त- √शुत् (यथा.) द.
शूघन, ना^० -नाः अप ४८,
१०६; -नासः आपथी १७,

a) कस. । b) वस. । c) व्यथ. । d) विर. (सत-). e) पाणे. वैप १ शुष्माय ना २, ७, ८
दि. द. । f) तु. पापम. । शुपि- इति पाठा. प्रथ. । g) < √शुप् । h) वैप १ द. । i) = १ वल्ब- ।
j) पाणे. वैप १, १७१५ । द. । k) शौ १९, ४०, २ शुष्पडा। दि. द. । l) नाप. (शुभ-). m) मलो. कस.
या वध. वा । n) = शूकर- ।

१८, १, विष २, १५, सुषा ५
१७
शृ(गि>)ची* - चोमि गाथी ३,
४, ४, १७^०
शृङ्, झा* - पाठ २, १९, वाप ४, १, ४,
-द शांथी १६, ४, ११, वाथी,
-द्वय वीथी १६, २० : ३, १८,
८ ३, दिथी ७, १, ७२, वाप,
सुष १३३^१, -द्वया विष २६, ४,
-द्वय वाथी २१, ४, १६,
वापथी १, १९, ९, १३, १९,
८^१, दिथी, -द्वा शांथी १६,
४, ४^१, आपथी १, २१, ९,
सु ७, १, माप, पावा ४, १, ४,
-द्वा शांथी १४, २३, १९,
आपथी २०, ५, ११^१, वीथी
१४, ९ : २, अप, -द्वाणाम् अप
५०, ५, ५, ५३, ४, २×, वाप,
-द्वाण् भाथी १०, १३, ८, माथी
१, ६, १, १४, वाथी, -द्वाण्
अप ५३ २, ५, ५४, १, ३×,
वीथ ३२५, -द्वाण् पाठ १, ४,
११, गीष्ट ३, २, ४^१, वाप १,
२५, २०, ४०, -द्वाण् आपथी
२२ २६, ५, वीथी १८, ९, २४,
२४, २१ १०, दिथी, -द्वाणाम्
अप ७५, २९९ आपथ १, ९
११, २६, ७, २, २७, ८, वीथ,
-द्वा वीथी २, ५ १४, ५, ८ ४,
आपथ १, २४, ३, वीथ १, १०,
२२, ३×, दिथ, -द्वाण् शांथी २,
८, ३ आपथी ११०, १२, १०,
१३, १३, १५, २०, १६, वीथी,
-द्वाण् अप १३६, -द्वाण्
शांथी १४, २३, १९, १५ २४

११, वीथी, आपथ २, ८, ४^१,
माप २, २१ : ११^१, दिथ १,
१०, ६^१, -द्वा काण्ठ ४४
१३, वैष ७, ४ १४, वैष ३,
१३, ११

शृङ्गी- श्लोणाम् आपथी
१२, २, -श्लोण् रूप १, ८, ७
शृङ्गी- श्लोण् शांथी १५, २४,
१^१.

शृङ्ग-कन्या- ज्यया विष २४, ८
शृङ्ग-कर्मन्- मंसु वीथ २, ४, १५
शृङ्ग-कृण्- एव वैष ३, १२, १०
शृङ्ग-गमन- नम् आपथ १, २१,
१३, दिथ १, ६, ४१
शृङ्ग-गवो- न्द्वे वीथी २४, २१ ५
शृङ्ग-जगन्- न्मनाम् अप ३४२,
-न्मा पाठ ३, १५, ६

शृङ्ग-शानो(न-उ)पदेवृ- ए
काप २७८ ८

शृङ्ग-तक्ष() वीथ ३, ३, ३२, ३३,
आपथ १, ७, २०, २१, दिथ
शृङ्ग-ता- ताम् वीथ १, ८, १३,
विष २६, ६

शृङ्ग-र- ताम् वाप ३, २, विष
२८, ३६, नाथि १, ४, ४

शृङ्ग-दान- ताम् वाथी २२, १,
११

शृङ्ग-दु(ग) श्वा- ज्वाया
अपथ २ ८^१

शृङ्ग धर्म- शृङ्गधर्मिन्- मिण
वाप ५ १०^२

शृङ्ग पति- तयो विष ३०,
१४, सुषा ८ १८, -श्री आपथ
१, ९ ९, विष १, ३, ९

शृङ्ग-पुत्र- न् अप २७७

शृङ्ग पुरोहि- न् काप २७८ ९
शृङ्ग प्रमत्ति- न्गनाम् विष ५,
११५

शृङ्ग प्रेष(त-श) सुपमन्- नम्
विष २२, ६३.

शृङ्ग प्रेष- नम् वाप ३, ३
शृङ्ग प्रेष- न् काप २७८ ९

शृङ्ग भाण्ड- रिभत- तम् काप
१८१

शृङ्ग मिथुन- न्नी आपथ २, ६, ९,
दिथ २ २, १

शृङ्ग-याज- न् काप १५, ११,
सुष ८६ १२, -कम् वीथ
२०, १

शृङ्ग पात्रि- पित्र विष ८२,
१४

शृङ्ग रात्र- ज्ये विष ७१, ६४
शृङ्ग लक्षण- नम् वाप ६, २४

शृङ्ग-वर्ष वीथ ३, ९, २८, शीष्ट ४,
७, ३३, ४०, आपथ

शृङ्ग-वच- न् अप ४०२^१, -धे
विष ५०, १४, -धेन वीथ १,
१०, २३

शृङ्ग-वधिन्- धी काप ४१४
शृङ्ग वर्जम् द्राष्ट १, ५, ५ आपथ
१ १८, १३, विष १८ ६, दिथ
१ ५ ८२

शृङ्ग विट क्षत्रिय- ये विष १६, ६
शृङ्ग-विनाशन- नम् अप ७१,
१६, २

शृङ्ग-सयोग- गार्द काथी ६ ७, ४
शृङ्ग-सथाव- धे वीथ १४१, ३९

शृङ्ग सधर्मन्- मीण काप ३, १
शृङ्ग सनिकर्ष- ये वीथ ३ ९, २०,
शीष्ट ४, ७, २०

शृङ्ग सनिकर्ष- ये वीथ ३ ९, २०,
शीष्ट ४, ७, २०

a) = सूची १ वृ १ : <✓ वीथ द्वा श्ल १ b) स्या काथी २०, ७, १ आपथी २०, १८, ७ सूचीमि
दति पामे । c) वैष १६ । d) शृङ्ग इति पाठ १ वति शोध । e) पाठो वैष १, ११, ६३ १ ।
f) तखेदमीय अम् प्र । g) वस । h) उप <✓ वा(राणे) ।

शुद्ध-सप्त- -मा: वाप २, ६; बौध
१,२,७; विष २८,४०; वैष २,
१०,५.
शुद्ध-समीप- -ये वाप १८,१९; १३.
शुद्ध-संप्रदेश-संभाषा- -> प्या-प्र-
(सुथानाभिवादनो (न-उ)दका-
वाय-वर्ष- -पानि काशी ७,
५,४.
शुद्ध-साधर्म्य- -र्म्यम् बौध २, ३,
५२.
शुद्ध-सेवका(क-अ)ज्ञ-भोजन-
-ने काप २७७ : २.
शुद्ध-सेवन- -नम् बौध २,१,४१;
विष ४०,१.
शुद्ध-हंसा- -स्यायाम् शंघ ३२४.
शुद्धहत्वा-वत्- -नम् विष ५०,
४६.
शुद्ध-हिंसा- -सायान् वाप २०,
३९.
शुद्ध-हुत- -नम् कौट ७३, १८१.
शुद्धा-गमन- -वे शंघ ३७७ : १९.
शुद्धा(द्र-आ)चार्य- -र्यः शंघ
३७७ : १७.
शुद्धा(द्र-आ)ज्ञा-कारिन्- -री काप
२७८ : ९.
शुद्धा-उत्प-ग- -मा: गौध १५,२२.
शुद्धा(द्र-घ)तुल्येन- -सायान् वैष
२,१५,६; -श्री: वैष २,१५,७.
शुद्धा(द्र-म)घ- -सम् वाप ६, २६;
शंघ १४४,४३४, आणप २,१८,
२; भीष- -स्नेन वाप ६,२७,२९.
शुद्धाप्र-पुष्ट- -एान् विष ८२,
२२.
शुद्धाप्र-भोजन- -ने भाषिण २,

७,७ : ३.
शुद्धाप्र-रस-पुष्टा(घ-अ)ज्ञ-
-ज्ञः वाप ६, २८; -ज्ञा: शंघ
१४३.
शुद्धाप्रसमीगमनभोजन- -न्येषु बौध
४,१,६.
शुद्धा(द्र-अ)पपाल-अवग-संदर्शन-
-नयो: बौध १,११,३३.
शुद्धा-पुत्र- -ग्र: वाप १७,३८; विष
१८, ५; ३८; गौध २८, ४०;
-श्री विष १८,३९.
शुद्धापुत्र-वत् गौध २८,४६.
शुद्धा(द्र-आ)भिगमन- -ने बौध ४,
११,१.
शुद्धा(द्र-अ)भिजनन- -नम् बौध
२,१,४१.
शुद्धा(द्र-अ)र्म-मातृक- -कम् गौध
२०,१.
शुद्धा(द्र-अ)र्म- -पाग २,२,३१.
शुद्धा(द्र-आ)र्म- -र्यो: शंघो १७,
६,१; काशी १३,३, ९; आणथी
२१,१८,४; १९,९; वाथी.
शुद्धा-उप- -धेन वाप २३,६.
शुद्धा(द्र-अ)शुष्के(चि-ए)कपाण्या-
(चि-आ)वाशित- -तेन गौध
९,१२.
शुद्धा(द्र-आ)शौच- -वे विष २२,
१९,१८.
शुद्धा(द्र-म)ष्टरप- -रयः वैष ३,
१४,५; १५,९.
शुद्धै(द्र-ए)ककरा(र-आ)वर्गि(त->
ता- -भाभि: विष ६२,५.
शुद्धो(द्र-उ)च्छिष्ट- -ष्टम् भाषिण
३,११,३ : २३; आणप १, २१,

१७; द्विष १,६,४७.
शुद्धोच्छिष्ट-भोजन- -ने शंघ
६२६; सुप १ ८६ : १०.
शुद्धोच्छिष्टा(द्र-अ)शन- -वे विष
५१,५०.
शुद्धोच्छिष्टा(द्र-आ)शित्- -शी
विष ५१,५४; ५६.
शुद्धो(द्र-उ)त्पत्त- -ज्ञ: आणप २,
१७,२१.
शुद्धो(द्र-उ)पाप्याय- -म: शंघ
२०१.
शुद्धो(द्र-उ)पाप्याचिन्- -थी वाप
२७८ : ९.
शुद्धक- -पा ५, ४, ३; वाप ४, १,
११०.
शुद्धकायण- -पा ४,१,११०.
शून्य- -पाग ५, ४, २९; -म्यम्
दाथी ४,४, २२; निरा ९, ११ :
२१; अण ७०, २३, ७; ७०, ६,
२:३.
शून्य-क- -पा ५,४,२९.
शून्य-शाला- -शायाम् कौट २७,
२.
शून्य-द्वार- -स्तम् याशि १,१५.
शून्या(न्य-अ)गार- -रम् आणप
१, २९, १; द्विष १, ७, ५७;
-वे वाप १०, १३; वैष १, १,
५.
शून्यागार-निकेतन- -न: विष
९६,१०.
शून्यागार-न्येत-गुहा नदी-शुष्क-
शूल-निरेतन- -न: शंघ ३७९.
शून्या(न्य-आ)लय- -नम् विष
६३,२१; -वे विष ६८,४७.

a) डग. = शुष्क. । b) एष. > शुष्क. । c) तु. चौस. । द्वय. उदकावाय = उदक-प्रदेश, गर्ग = प्रति-
फल. । *वाभिभाष" इति अत्यु. ? । d) अतमर्थतामासः (शुद्धाप्र-भोजन, शुद्धशी" शून्य-रयः) । e) द्वय. > एव.
> द्वय. । f) वेन १६ द. अण. भाष. । g) द्वय. > एव. (द. [अंतः] आणप १, ४, २१) । h) मय. ।
i) तु. पाणम. । j) वैष १ ६. १ । k) वत. ।

२शून्य- ध्व- द्र
 शून्य-क- १शून्य- द
 शून्यमान. वीथी १८,४७ २०
 शून्य-शाला- १शून्य- द्र
 ✓शूल पाषा दिवा आत्म हिमा-
 स्तम्भनयो, चुरा आत्म
 निम्नान्ती
 शूल- पाउ २,२५, पाग ४, १,१६०,
 -फं०२ काथी ५,१५, २, ६,३,
 १०, ५, १८, काथी, या ४,
 १९, -२ काथी ६, ३, ११,
 वैथी, सु ३२,०, या ४, १३०,
 -२म् वीथी २७, ६ ७१,
 सु १७, ४, ३०, ३, आभिय
 २, ६, ३ २८१, -२ काथी
 ८, २३, १, अप ६८, १, २३,
 आपय २ २६, ३, हिय २, ५,
 १९८, -फं०२ काथी १,१०,
 ६, वीथी, -२म् विष ३,१९
 वीथि- पा ४ १,९६
 वीथि- धंम् वेताथी ४,२३१
 शूर साति- वी विष २ १७१
 शूर से(ना>)न- पाग ४,२,८०,
 ११०, -२म् वष ५०,२,२
 वीरसेन- पा ४,२ ११०
 वीरसेन्य- पा ४,२,८०
 शूरण- पास या ४,१३०
 शूर्त- ✓श (हिंसापाम्) द्र
 ✓शूर्त पाषा चुरा पर माने, गर्जन
 शूर्त- पाउ ३ २६, वा ६, २, १२२,
 पाग २, ४, ३१, ४, १, ४१,
 -२म् वीथी ४, ३, २, १२,
 २४,२, काथी, सुभ १ ५८,

१३५, या ६, ९०, -२म्
 वीथी २०, ६:२८, ७ ५,
 २१, २ २३x४, माथी,
 -पाणि माथी ६, १६, ७, ११,
 -पां० वैथी ४, ७-८, हिथी
 १,५, ६३, ३,८, ५९, वैथ १,
 २१ १९, -२ं वीथी ४,३,५,
 वाथी ३, ८, १, २५, ७, ३०,
 आपथी, -२ं काथी ५, ५,
 १०, आपथी ८,६,२३, काठथी
 ३४, वीथी
 शूर्त- पा ४,१,४१
 वीथि- वीथिक- पा ५, १,
 २६
 शूर्त-कुत्ता- २म् पाग १, ७, ५
 शूर्त-चमस- से वष ३,२,१०
 शूर्त-पु- २म् वैथ १, २१ २६,
 -२ं का १,७,१४
 शूर्त शकट- डे काथी ४,१४,३३
 शूर्त द(ल>)स्ता- २म् काठथी
 ३४
 शूर्त(वे-आ)का- २म् आभिय २,
 ५,१ २०
 शूर्त(वे-आ)गिको-द्रवधि^१, वी^२-
 -नि काथी २,३,८, -नी वाथी
 २,२,१००
 शूर्त(पं आ)दान- २म् वीथी २५,
 ३१-२
 शूर्तदान-वृत्ति- २म् वीथी
 २६,२१ १, -ति वीथी २४
 २६ १३, २५ ३ १x४
 शूर्तपाय- पाग ४,१,१५१, २, १०
 वीथिनाय- पा ४,१,१५१

शूर्तपायीय- पा ४,२,९०
 ✓शूल पाषा भा पर राजा
 सपोवे च
 शूल- पाग २, ४, ३१, ५ ४, ३,
 -२म् काथी ६ ८, ३, ८, ८,
 ३१, काठथी ५२, माथी १,
 ८, १, २१, ५, १२, वाथी,
 -२ वाथी ३,६१ २, संभ
 ३७४, -२म् आपथी ७, २३,
 ७, काठथी ६४, वैथी १०,
 १८ ६, हिथी ४,४,७५, -२म्
 आपथी १९, ४, ९, वीथी २,
 ८ १, २१, हिथी १३,८,४२,
 -२म् वाथी ३, ६१ ९,
 -२ काथी ६ ७, १४, २०, ७,
 २७, आपथी, -२ं काथी ७,
 १७, ८, माथी १, ८, ६, १९,
 वाथी, विष ८६, १०, -२म्
 आभिय २ ५ ८ ८, वीथ २,
 ७,१४, -२ं वीथी २,९ ३३,
 आभिय २, ५, ८:७, ३ २,५.
 ९, वीथ १ १, ९ २, ७, १३,
 ११, १४, भाग २ १६ ११,
 हिय २ १५, ६, -२ वीथी
 २३, १६ २०, वाथी ३, २,
 ७,८५, हिथी १३, ८, २८
 शूल कर्म- २ं काथी २८ ११
 शूल-गव- २ व वीथी ४, १७, २,
 वीथी २४, ४ २, आप ४,८,१,
 ३५ पाउ ३ ८,१, आभिय, -२म्
 भाग २, ८ १, ४, ६, १०:
 १६, हिय २ ८, १, २, ९, ९,
 -२म् भाग २, ८:१०, -२

a) वैथ १ द । b) व्यप (यु- ६४ पागम् १) । c) सपा वी २ ५ ४ शक इति, पै २ ७,२
 मदाशे इति च पाठे । d) पाठे वैथ १ शूर क ३, ४१,३ इति द । e) नाप (दिश-) । वस ।
 f) अर्थ ३ । इ पाका । शूर इति भाष्ये प्रथ । g) तु BFG h) = मान विशेष- इति पागम् ।
 २) = [उपचारतः] देवता- । j) उप = कोष (तु भाष्यम्) । k) वस । l) वस उप = २पाकार- ।
 m) समाहारे इति । n) इति । o) द्वि । उपरेण सधिरार्थ । p) = पुत्रव विशेष- ।
 वैथ ४ प्र ३६

द्राक्षी १२, १, ६, लाक्षी ४, १, ४,
-वेन पाठ ३ ९, १०
शूल धर- पाठ २, २०
शूल-पहिता-सप्तमू(कि फ)ष्टि मुद्रा
(र अ)सि पराभव- धै. अय
५८, ३, ५
शूल प(द >)दी- पाग ५ ४, १३९
शूल पानय- नयम् बीश्री २०,
२९ ८
शूल पाणि- पाग २, ३०
शूल पाषाण- चाम् बीश्री १४ ७
शूल स्यूना- गानाम् वृदे ४, ३०
शूल हस्त- स्वान् आपम २,
१४, १, आसिप २, १, ३ २२,
भाष्ट १, २३ १४, दिष्ट २, ३, ७
शूला ✓कृ पा ५, ४, ६५
शूला कृत- तस्य वापुश्री ४,
११८१ ९
शूला(ल अ)प्र- प्रम् अय ६८, ५,
६
शूला(ल अ)गिमन्त्रण- नाय
वाश्री १९, ५, १२
शूला(ल-आ)श्रीहण->आ(ल अ)
दि-वातना-कृत्य- नय वैष
३, १३, ४
शूला(ल-अ)वि(त >)ता- नाम्
अय ३१, ९, ५
शूलिक- ७ वैष ३ १३ ४
शूलि क->शिका- पा ५ ४, १०
शूलिन्- शिने कीत् ३१ ७
शूलो ✓मू->शूली वृण- ता
बीश्री १४, ११ १३

शूलव- पा ४, २, १७, -व्यम् काश्री
२०, ८, ४
शूलवाण- -गाय कौत् ५६, १३१.
✓शूल (वधा) पाषा भा पर प्रले,े,
शूलति अय ४८, १९१
शूल- पाठमो २, ३, १६७, पाग ४,
१, ४१९, -०य बीश्री १४, २१
३०, -पय आश्री २ १७, ७, अय
४८, ६४, निष २, १, ३, ६,
-पाय आपश्री १४, २५ ११,
हिथी १५, ६, २९, गोष्ट ४, ३
१८८, द्राष्ट ३, ५ २४
शूलो- पा ४ १, ४१
✓शूल (वधा) पाषा भा पर
हिंसायाम् शूलनाति अय ४८,
१९, शूलनीताम् अग्राम ६, ३,
शूलगात कौत् ८६, १२
शूलस्यै अय ५ ६, ३२
शूलैते वापुश्री २, ११ १४, वा
६, ३०, शूलैते वापुश्री २,
११ १३, शूलैते आपश्री १४,
२५, ७, माश्री ३, ६, १०, कैश्री
२१ ११ ४
शूल- पा, पाग ४, २, ८६, ३, १४२,
६, ३, ११९, -र आपश्री ३, १४,
३१, दिथी २, ६, ३४, अय
३, ९, ८, निष २४, ६, वा ५,
४४, -रम् कौत् ४८, १०, निष
१२ ५ -रस्य कौत् १४, ७,
२५ ६, १०, अय ३२ १, १३, अय
१, ३, वा २ १६, -रम् अय
३१, ९, १, -रे विष ९९ १५,

वाशि १, ४८, -रेषु बीश्री ६, ३,
३४, ८, ३, ३२, १०, ७, ५३,
५४, -रै माश्री ४, ६ ३, कौत्
४७, ५२
शूलो- पा, पाग ४, १, ४१
शूल क्षेत्र- नयम् विष १२, ४
शूल- पा ६ ३, १६
शूल-ल- लानि अशा १५
५, २१, १
शूल-प- ३ वाष २१, ३
शूल-सु(च्छ >)च्छी- पाषा ४, १,
५५
शूल-सुरय- (> दीप- फ)
पागम १९६
शूल शूलि- -श्व्य अश्री १५, ५,
-दिना माश्री ४, ६, ३, -श्री
कौत् ३६, १४, ४७, ४३, अश्री
१५, ५
शूल-नय- पा ४, ३, १४२, -नय
आश्री २, ५, ५, शश्री १४ २२,
१३, काश्री २२, ३, १६, आपश्री
शूलमधी- नी आपश्री
१०, ९, १३, -वीम् वा १०,
२९, -व्य वा ५ ४
शूलमय कुनपा(० अ)श्वार
मुञ्ज मुञ्जि-घतेजना(न अ)कुना
(न अ)शूल-नूर्वा श्यामाक-
का बीश्री २८, १३ ९
अर मुञ्ज- अनाम् हिथी ७,
१, ४९
शूलमुञ्ज मि(ध >)धा- शा
वैश्री १२ ८ १२

a) तु पागम । b) विष > नाय (इष्टका) । सलो कम । c) बस । d) = नाशयाम् । तेन
औक्ती वषे द्नु प्र उस (पा ४, ४, १७) । e) = राक्षस विवेक- इति अय । f) वा हिंसायां वृति । g) वैष १
निदिष्टयो समावेत द । h) द्ये २ । i) = मुख । j) = १२७- । k) पागे नैप १ मुञ्ज्याय वा २, ७,
४ १ द । l) वा १, १०, २, ७ १६, ३, ५ ५ ४, ६, ९ पा ७ ३, ८०, ४, १२, परासुष्ट द । m) ✓शूल
इति [१५] अय । n) वैष १ द । o) = २४२- (तु वैष १) । p) = तथा तैसा ३, ७, ६, २३ । वा ६, ७५,
१९ तु शूल्ये इति पागे । q) वैष २ १४ द ।

शर-वृत्त- पा ८,४,५
 शर-वृत्त- नीम् १०,४, ८, ७, ११,
 ५१.
 शर-वृत्त- पा ४, २, ८६, -पान्
 या १२, ८.
 श(र) > शवती- पा ६, ३,
 ११९
 शर-वृत्त- पावा ६, १, ८२
 शर-वृत्त- नी विष २०, ४४.
 शर(र-वृ)वि- पाग ८, ४, ३९
 शर(र-आ)दि- -दिषु शीच ३,
 १६.
 शरे ज- पा ६, ३, १६
 शरे(र-द)पीच- -रुपा शशी
 ७, २, ३५, आपथी १०, ७, ३,
 माथी १०, ४, १२, वैथी १२, ७
 ७, द्विथी १०, १, ४६, -का
 शशी १७, ३, ११, वीथी ६ १ :
 ८, २ १५, -कामि माथी २,
 १, १, ३८, माथ १, १३, ८,
 -काम् वीथी ६, १. ४
 शरे(र-द)पुचि- -धिम् अप ४,
 १, १४
 शरविर्- -निम् शशी ७, २, ७,
 काथी ३, २, ७, आथ १, २३,
 २५, अप ३ २७
 शार- पा ३, २, १७३, -पैर
 निष ४, ३, या ६, ३१६
 शर- पाठ १, १०, -रथ अश १,
 १११, -र पावा ६, १, ८२१,
 -रुम् जसा ७, ५४१
 शरशरम् - > शर- व्या
 अश १२, ५ (३), -मे श्रुपा
 २, २०
 शर-वृत्त- मान् या ५, १२१

शर-वृत्त- -पान् पावा ६, १, ८०
 शर इर- -रुतः पावा ६, १,
 ८२.
 शरंरीक- पाठ ४, १९
 शार- पाग २, ४, ३१, पावा ३,
 ३, २१
 शारक- पा ३, २, १५४
 शारि- पाठ ४, १४३
 शीर्ष- पा ८, २, ४४ - गंम् वैतारी १२,
 ७, -र्ना या ४, २५, -गं वाथीस
 ३३ १३, वैथी २२, १७ १, वीथ
 ५७, ८, अशय ६, ३, ५, ९
 शीर्ष-मुमु(म >)ना- -माम्
 स्य १, २, १२.
 शीर्ष पवित्र-पत्रा(प्र-आ)
 शर- > रिद- -री वैष १, ७,
 ८
 शीर्ष मृत- -नी श्रमाय २, ९
 शीर्षि- पावा ८, २, ४४
 शीर्ष- -र्ना अप ४८, १०६,
 निच २, १५
 √श्रु, श्रु (वषा)^० वषा. भा पर
 धवणे, शीर्षवत् शशी ४, १५,
 २, ५, ७, ३, शशी ६, ६, ४४,
 ८, १६, १७, शीर्षवत् शशी ८
 २०, १७, २१, १, २३, १,
 श्रुताम् शशी ८, १९, १७, १,
 शीर्षुधि, > धी शशी २, १७,
 १५, ६, ३, १, ७, ८, ३, ११,
 २५, शशी, कथा ७ ५०,
 श्रुताम् वीथी ७ ३ ३१, शीर्षोत्
 > ता वा १२, ४३६, कथा ७,
 ३३, श्रुता १, १२९
 शीर्षवत् वीथी १३, २ २,
 ६, या ६, १६, १३, ३८

श्रुतावत् या ५ १०१६, श्रुता
 कथा ९, ४११, श्रुतावत्
 कथा २, ४८१
 श्रुते अप ७०, २८, ३, वीथ
 ४, ८, १४, श्रुति शिष्यो १२,
 ५, ६१, श्रुथी ३, १ ७, द्विथी,
 या ५, १७, श्रुवन्ति वैष
 १, ११, ६, या २, १२, कथा,
 श्रुथे वाप ३६, १, कथा २,
 ४७, श्रुथुम् सु ११, ६, श्रुथवत्
 शशी ५, ७, ३, ७, ३, १८४४,
 शशी, श्रुथवत् या १२, ३०१,
 श्रुथो माथ १, २५ १९१,
 श्रुथोत् शशी १, १०, ८, ५,
 २०, ६, शीथी, या १०, ६,
 श्रुथन्तु शशी १८, १, २१, वीथी
 ७, ३, ४१, अप ६६, १, ३, या
 १२, ३०, श्रुथवत् अप ३०, १, २,
 श्रुथु शिष्य १, ५, ४ ३११, २,
 ४, १२ ३, वीथ, श्रुथुधि >
 धी शीर्षा ४, ७९ ७, ३३, श्रुथ
 ३, १२११, या ६, ४, १०२,
 श्रुथुधि > धी शशी ८, १, ३,
 शशी ५, २, १०, श्रुथवत् अप
 ३३, १, ४, वीथ १, २८, २, ३३,
 श्रुथु, > ता शीर्षाथी ३, ७, १०,
 ५, १८, १३, शीथी, कथा ३, ९,
 श्रुथेत् वीथी ७, ३ ५१, श्रुथे-
 त्त शशी १५, २६, ११, श्रुथ-
 वत्त आश २५, १८, श्रुथि
 १, १, ४ १३, माथ १, ९ १७,
 द्विथ १, ७, १०, श्रुथवत् शशी
 १६, १३, १८१, आपथी १९ ३,
 ५१, वीथी, या ११, ३८, श्रुथवत्
 आपथी ३, १६, २१, वैथी २०,

अ) वैष १३ । ब) वष । c) या ९, ९, या १, ३, ५७, ७, २, १३, ४, ८१ पराश्रु द ।
 d) पराश्रु पाथे । e) श्रुथि इति व । f) पाथे, वैष १, ११-९ । द । e) तथा श्रुथवत् (तेषां ४,
 ४२, ५ व) <> श्रुथवत् (मा ३६, २४ प्रथ व) इति पाथे ।

२१ : १०; हिथ्री; श्रुणुयुः निम्
 ८, ७ : २४; श्रुणुयाम् शाथ्री ५,
 १९, ५; ८, १४, १८; आपथ्री;
 पाठ १, ६, ३; ११, ९; १६,
 १७; माथ १, १, १९.
 श्रुथुवे पाठ ३, १५, २३^१; विष
 १, ६५; श्रुथुव शाथ्री १५, १८, १;
 छ २१, १; वृदे ३, १३३; श्रुथुम
 > मा शाथ्री १२, २०, २; १५,
 १९, १; सु; श्रुथुमो^० आपथ्री
 १६, ३४, ४; वैथ्री १८, २१;
 ३५; हिथ्री ११, ८, १५; श्रुयाः
 श्रया ९, ४६; श्रुथुवम् या ६, ९,
 श्रुथुवे शाथ्री १, १६, ७; ७, ८,
 ६; आपथ्री; श्रुथुवे आपथ्री ९,
 १३, ७; श्रुथुवे आपथ्री २४, ३,
 ३०; हिथ्री ३, १, १०; १०, ७,
 २५; शाथ्री; श्रुथुवम् शैथि
 ३२५, श्रुथुवे श्रुथुव ७०^०, २, ३,
 श्रुथुववे वीथ्री ९, २० : ३; वीथ्र
 ३, २, १६; ४१; ४, २९; माथ ३,
 ५ : १२; श्रुथुवति वीथ्री ७, १६;
 ४२; हिथ्री ६, १, ३; वैताथ्री
 ३७, १३; श्रुथुवव, > या काथ्री
 ३, ६, १५; आपथ्री २, १५, ३^०;
 ३, ७, ९; वीथ्री; श्रया ७, ३३;
 ९, ३२; श्रुथुवेत् वैताथ्री ३७,
 १८; श्रुथुव, ७, २६; श्रुथुव ३,
 ३, २ : २२; ११, २ : २०; वाथ.
 श्रुथुवति विष २५, १५; श्रुथुवन्ते
 वीथ्र ३, १२, १०; श्रुथुववम्
 वीथ्री १५, ४ : १०; वाथ्री ३,
 ७१ : ६^१.
 श्रुथुविववे वीथ्री १५, ४ : १०.

श्रुथुवस्- वा ३, २, १०८; -वांसः
 तैथा १६, १३^१; -वांसा श्रथा
 १३, २३; -वात् शाथ्री २, ६, ५;
 वीथ्री १७, ४९ : १४४; माथ्री.
 श्रुथुवमण- णः श्रप १, ४९, २;
 आपथ १, ६, १३; हिथ्र १, २, २६;
 -पस्व आपथो १, ३.
 श्रुथुवा- -वा आपथ १, १, ६; १४,
 ६; २८, ९; वीथ्र; -वाम् वैथ
 २, ५, ३.
 श्रुथुव-कारक^० - ऋः श्रप ७७,
 ४, ५.
 श्रुथुवा-रहित(>)वा- -वा
 नाथि २, ११३; नाथि २, ८, २८.
 श्रुथुवा-लेप- -वे वीथ्र ७, ११, १
 श्रुथुव- -वुः वैथ १, २, ६; वीथ्र २८,
 ४०; वृदे ६, १४२; नाथि १६,
 ७; नाथि; -गुण्य विष ३१, ३;
 -पुण्यम् श्रप ७०, ३, २.
 श्रुथुव(वप >)ण्य^० - ण्यम्
 वाथ्री १, ४, ५; आपथ्री १४, ११,
 २; वीथ्री ३, २७ : १३.
 श्रुथुव- -व्यः श्रप २, १०, २.
 श्रुथुव- -श्रुथुवते आथ्री ५, १४, २६;
 आपथ्री २०, १, १०४४; वीथ्री,
 -पव् अथ ६९, ४, ४; या १,
 ११^१.
 श्रुथुव^०- पाठमो २, १, २८५; -वाः
 श्रप ६८, २, ३१; -गम् आथ्री
 १, १०, ८^१; शाथ्री ९, २८, ३^१;
 आथि २, १, ५ : २२^१; वीथ्र;
 श्रप ७०^०, ३, ४; शंष ४५७ : २;
 या ११, ३३^१; नाथि २, १४;
 नाथि १, ८, ५; -गाथ्र काथ्री^०

३६ : १३; वीथ्र ३, २, ५५; विष
 ८, १३; वृदे ४, ११९; वीथ्र ४,
 १, ४६; २, २८; -वे शंष ४५७-
 ४५८ : ३.
 श्रुथुव-श्रुथुवति- -ति पाठ ३, १०,
 ४४.
 श्रुथुव- -वम् या ११, ९, ५०;
 -पथि वा ५, २५.
 श्रुथुव-वार^०- -रः वाम्
 १ : ५.
 श्रुथुव-वैः माथ्री ६, १, ७, २८.
 श्रुथुव- -वन्तः श्रया ९, ४३.
 श्रुथुवस्^०- -वः आथ्री २, १०, २९;
 वाथ्री १८, २३, ६; आपथ्री; विष
 २, ७^१; १०; या ४, २४^१; ९,
 १०^१; १०, ३^१; ११, १^१;
 -वसः शाथ्री १०, ११, ५; लाथ्री
 ५, ४, १९^१; -वसा वीथ्री ९, ४ :
 ६; १०, ७ : ७; -वसे काथ्री १९,
 ५, ३; वाथ्री ३, २, ७, ३९; शाथ्री
 १३, ४, १३^१; वैताथ्री ३०, १६;
 श्रप ६, ४०^१; -वांति निम्
 १, १ : १४; वीथ्र ६८, १.
 √श्रुवस्व > श्रुथुवस्व-
 -स्वताम् वा ४, २५; -स्वम्
 काथ्री ४, २, ४३.
 श्रुथुवस्वा- -स्वा वैताथ्री
 २२, १३.
 श्रुथुवस्व- -स्ववः श्रप ३,
 ९; -स्वम् या ११, ५०^१.
 श्रुथुवस्व^०- -स्वाथि या ५, २५^१.
 श्रुथुवस्व- > श्रुथुव, का^०-
 पा, पावा ४, ३, ३४; पाग ४, १,
 ११०^०; -षा हिथ्री १४, ६,

d) पाठे. इ २४२३ छ म. 1 b) सप्त. तैथा ७, ४, १ विभ्रुयम् इति पाठे. 1 c) = णमङ इति ।
 d) प्रगणान्तो निर्देशः द. 1 e) पूष. इत्यः (वा ६, १, ६३) । f) कल्पः प्र. (पा ३, ४, १४) । g) आप.,
 पा. (१४७) । h) = संदिताशास्त्रकारनिवेद- । i) वीथ्र १ म. 1 j) प्रयः इति दे. 1 k) परस्परं पाठे. 1
 l) सक्ते इति शेषः संभाव्यत । m) [श्रुथुव] = पतिपुत्र-नपुं. 1 निवेदः टि. द. 1 n) ऋ इति पाठः ।

४४^{१०}, अण १, १, २; ४, ६,
१४, १; -घा. द्विथी १३, ५,
१४^{१०}, वाण १४, १०, अण;
-घाभि. अण १, १०, ७x, x,
अण ११, २, -घाम्य वैणु ३,
२०:१०, अण ५०, १, ४; अण
१२, ४.

आदिष्टायन^१- पाष्ठ,
१, ११०, -ना बौधाय ४५:७.
आदिष्टीय- पावा ४,
३, ३४.

अदिष्टा(घा-प्रा)दि- -द्वी
वेज्यो ७

अदिष्टी(य)पा^०-

-यायाम् वाण ४, १५, १^१.
अवाव्य^१- पाठ ३, १६, -व्यम्
शुभा ४, १५, ३^१.

अव्य^१- -व्यम् नाति १, २, १.

अवक-क चव्यु १. ५.

१अवण- -णम् आपण १, १३,
१०, द्विष १, ४, २४

आवणीय- -यम् विष १००, ३

आवय > ^१या(य प्रा)दि- -दीनाम्
रुमा १ २१.

आवयिष्यन्- -व्यम् कौण्ड २, ७,
१७, वाण २, ११, १३.

आव्य- -व्यम् विष १००, ३

शुन्^१- > ^१शुन्-का^०- -०^०
आपथी २२, २५, ९, बौधो १८,
१२ ९, द्विथी २३, ४, २७,
-पांय^१ आपथी १४, १७, १,
द्विथी १५, ५, १

१शुत, ता- पाण ५, २, ८८, -ता
^१आथी ६, २, ६, ७, ११, २८;
वाथी, -तम् आथी ७, ४,
३^१, ^१आथी ७, २३, ४, १२, ९,
११; वैताथी, -तस्य वाण ४१,
१८^१, माण १, १, १८, वाण ५,
३४^१, विष ७१, ६, -ता गोण्ड
३, २, ५, जैय १, १७:२; द्राण्ड
२, ५, २८, -तात् आपण १, ८,
२७, द्विष १, २, ११५, -तापि
वैथी २०, १:७, -ताय आथी
६, ४, १०, ८, १२, ६, शांथी १०,
१२, १७^१, -तायै शांथी ८, २१,
२^१, -वेन आपथी ४, ५, २^१,
बौधो १, ११:४१^१; माथी,
वृदे ४, १२०.

शुत-आपि- -यीन् आमिण्ड २, ६,

३:३६^१

शुत कक्ष^१- -क्ष कक्ष २, ८,
१२.

शौतकक्ष^१- -क्षस्य निण्ड

८, १ ५.

शुतकक्ष-सुकक्ष- -शौ शुल

३, १९६^१, साम १, ११८, ११९,

१२८x

शुत काम- -तस्य शाथी १५,

१०, ४

शुत-तस्य () गोण्ड ३, ५, २८,

या १, ८

शुत तस्य^१- पाण २, २, २१, ४,

१४

शुत-तस्य- -तात् गीस ११, ४,

१७^१.

शुत-वेना नाति-कर्म- मंगाम्
विष ५, २६.

शुत द्रव्य^१(व्य-अ)वेदन^१- -ने
वैथी २०, १:४.

शुत धारक- -क अण ३६,
१८, १.

शुत-गृह^१- > ^१विन्- -विंगाम्
गोपि १, १, ७.

शुत-गण्यु^१- -न्यु कक्ष २, ५,
२४, शुभ १, १९२, -न्युना
वृदे २, ५४, -न्यो. पाठ १९:

१९

शुत(त-त)पि- -न्यय आपण
१, ५, ५, द्विष १, २, ५, -विन्
मादि १८^१, -पिन् वीथ २,

५, २७^१

१शुत-वर्- -वत वीथी २४,
३३ ८, -वता आमिण्ड ३, ६,

२:३, वीपि १, ९ १२, -वन्तम्
माथी ५, २, १५, १, -वान् कौण्ड

३, १२, २९^१, आण्ड ३, १९

शुत विद्^१- -विद् कक्ष २, ५,
६२

शुत-वृत्त- -तयो वीण्ड २, ११, ६

शुतवृत्त संपन्न- -तान् आमिण्ड
३, ११, ४ २, कौण्ड २, ११, ६.

शुत वृद्ध- -व्यम् वाण्ड १, १, ६

१शुत वीथ^१- -कस्य अण २२,
१०, ३.

२शुत-वीथ^१- -श्ले वीथ १, ११,
२

e) = पौर्वेनातो-। तस्येदमीयम् छः प्र उत्स (पा ४ १, १३८)। f) कक्ष कौण्ड २, १ आवण्डाम् दत्त पाठे ।
g) वैष १ ३ । h) आ^० इति वास । i) पाठे वैष १ वैष्ये कक्ष ५, १५, १ द्वि. द । j) = साम-
विशेष-। k) 'कक्षमुक्त' इति पाठः । इति श्लेष (द्व साम., म द [मा ३३, ३५]) । l) ह पाण्ड. ।
m) शुक्तिशुक्लत्वात् इति प्रयास आन केवलानन्दस्य । n) कक्ष > धत. उप = अक्षम-। o) पव. ।
p) इति ।

श्रुत शील वृत्त-सपद्य- -वान्
 श्वाय ४,७,२.
 श्रुत शील-सपद्य- -य गौष
 १८,३५
 श्रुत शीला(त धं) न्ययो(य-उ)
 पपद्य- -सम् वाप २४३
 श्रुत शीलो(ल-उ,पसपद्य- -सम्
 वाप ११,२९
 श्रुत सवृ^१- -सत् घोषो ७,
 १२ ४९, वैधौ १५,२७ ५
 श्रुत से(ना>) ^१- -न वाघुधौ
 ३, ७७ १, ८८:४, -सम्
 शौधौ १६, ९, ४, -नाय भावि
 १८८
 श्रु(त >) ता मव^१- -वम्
 आधौ ९ ११, १५, आधौ १८, २,
 २, वैताधौ २१ २, ३३, २, श्व
 श्रुतिम्- पा ५ २ ८८
 श्रुतवप^१- वान् या १, २-८
 श्रुति^१- पाता ३, ३, ९५, -स्य
 शौधौ ९, ६, ६१^{१०}, नाशि १, ७,
 ११, -ति वाधौ १, ५, ६, काठधौ
 ७, वीधौ २२ १ १५, ४ २६,
 वैधौ २, ६ १०, काय १, २९,
 ३ १०^१, ४०, १६, ४१ २४,
 काय ४६ ६, माय १, १,
 १५×, वाय, वाप १३, ५४,
 नाशि १, ७, १०, -सिम् गौष
 २ ७, १५^१, ४, ९, ३, कय, -ती
 कया १३, १३, -तीनाम् नाशि
 १, ७, १, -ते कथौ १, १, ६,
 ३, १०, ४, १३×, वाधौ
 -ती कय ३ ८, १६, -त्वा मीम्
 १० ३४
 श्रौत^१- -सम् वप ३, ४,

५^१, शंष ५, -तानाम् शुभ ४,
 १६०, -तानि वंष ३, १, २, -ते
 वप ३, ५, १, ९, ५, -ती वैधौ
 २०, १ १.
 श्रौत-स्मार्त-कर्म-
 प्रसिद्धि- -दि शम १ १, १
 श्रुति-काल-निर्देश- -शास्त्र मीम्
 १२, १, १
 श्रुति-चोदन- -नाय श्व २३,
 ९, २, २७, २, ५, श्व २५
 श्रुति चोदित- -ता श्व २३,
 ७, २
 श्रुति जप- -य कय २, १, ४^१
 श्रुति-तस्त्र () भाष्य १, १, ९,
 २, २३, ९, हिष, मीम् ४, ४,
 ३४××
 श्रुति दृष्ट- -हेन श्व २३, ८, ५
 श्रुति निर्देशन- -नाय वाप २२,
 ५
 श्रुति-निरत- -त गौष ९, ६९
 श्रुति निर्णय- -सम् वैधौका
 ११६
 श्रुति-निर्देश- -शास्त्र मीम् ९,
 १, २०, २, १४
 श्रुति निर्वाचन- -नाय श्व ४७,
 १, १
 श्रुति पय- -धम् श्वपान ३, ६
 श्रुति पूर्ण-कर्म^१- -र्था वाप ६,
 २५
 श्रुति प्रतिषिद्ध- -सम् आषय
 १, ४, ५^१
 श्रुति-प्रत्यक्ष हेतु^१- -सत् वाप
 ६ ४३, वीष १, १, ६
 श्रुति प्रवेश- -शास्त्र श्व ४७,
 १, २

श्रुति-प्रमाण^१- -गा. निम् २,
 ४ ३
 श्रुतिप्रमाण १५- -स्यात्
 मीम् ६, २, १३, ७, १, १
 श्रुति-भार- -य मीम् ६, २, ४
 श्रुति भूत- -सम् मीम् १०, ३,
 ५७
 श्रुतिभूत त्व- -त्वात् मीम्
 १०, १, ११, ३, ६२, ७५
 श्रुति-भेद- -दात् मीम् ३, ७,
 २०
 श्रुति-भक्त- -मति या १३, १३
 श्रुति-भूल^१- -त्य- -त्वात् मीम्
 २, ३, १३
 श्रुति लक्षण^१- -णम् श्वपथी
 २, १, १, भाधौ ९, १, १, दिधौ
 १५, १०, १, श्वपथ १, ३०, ९,
 हिष १, ८, ९, मीम् ५, १, ३,
 ६, ४, ७, -ये मीम् ६ ३, ३४
 श्रुति लक्षण-त्व- -त्वात्
 काधौ १, २, २१
 श्रुति-लिङ्ग-मूल^१- -लम् श्व
 ७०^१, ११, ३१
 श्रुति लिङ्ग वाक्य प्रकरण स्थान
 समाख्या- -रघालाम् मीम् ३
 ३, १४
 श्रुति चत् नाशि १, ७, १७
 श्रुति विप्रतिषिद्ध- -सम् हिष
 १, १, १२४^१
 श्रुति विप्रतिषिद्ध- -शास्त्र आषय
 ८९, हिष् ३ ११, मीम् ६, ८,
 १७, ११, ३ ४९, १२ ४, ८
 श्रुति विरोध- -धात् मीम् ३,
 ८, ३२, -धात्वात्^१ काधौ ८,
 १, ३, -ये श्व ९

a) वैप १३ । b) भाष, नाप (२३२, १४९ प्रस्य) । c) पाठ (तु ३०) ^१ सुतय दति घोष
 (तु मी १ ४५३, ०) । d) राजनविक श्वण् प्र । e) = वाधि । f) पञ्च इति काशिय । g) द्यु > द्यु ।
 h) परस्पर वाप । १) वस > वस । २) वस । ३) वस । ४) वस । ५) द्यु ।

श्रुति-विशेष- -वात् आपथ १,
३०, ५; द्विष १, ८, ५; मीम् ५,
४, १; ९, १, ५२; १२, ३, ४.

श्रुति-संयोग- -वात् मीम् २,
१, २२; २, ५; ३, १८; ४, २४४;

श्रुति-सोहिता- -वायाम् अथ
४७, १, ४.

श्रुति-संख्या- -व्या आपठ ११,
१६.

श्रुति-समवाचिरव- -वात् मीत्
२, १, १६^६; १०, ४, २६.

श्रुति-समापयान- -वायाम्
काथी १, ८, ४३.

श्रुति-संपद^७- -पदः नाशि १, ७,
१८.

श्रुति-सामर्थ्य- -श्यात् काथी
१, ६, २६, ९, ४, २५, ५, २९; २५,
१२, २२; आपठ; -वर्षाम्
काथी ४, १५, २४^८.

श्रुति-सामान्य- -न्यम् मीत्
१, १, ३१^९; -वात् मीत् ११,
२, ४९; -न्येन वीथ २, १, १३.

श्रुति-स्यान- -नेषु नाशि १, ७,
१७.

श्रुति-रश्रुति-विहित- -तः नाथ
१, ४.

श्रुति-रश्रुति-सदाधार- > १^{१०}-
-वाः अथ ७०, १, ५.

श्रुति-रश्रुत्यु(ति-उ)दिव- -तम्
विष ७१, १०; -तात् संघ ५.

श्रुतिरश्रुत्युदिव-कर्मन्- -मी
वैथ २, १५, ११.

श्रुति हेतुत्व- -वात् मीत् ४,
२, १९.

श्रुत्य(ति-अ)पाय- -वात् मीत्

४, २, ९.

श्रुत्य(ति-अ)भाव- -वात् वाथ
१, १७.

श्रुत्य(ति-अ)र्थ-क्रम- -नेभ्यः
काथी १, ५, ३.

श्रुत्य(ति-अ)र्षा(र्थ-अ)भा-
-वात् काथी १, १०, १.

श्रुत्य(ति-अ)संयोग- -वात् मीत्
१०, ६, ८०.

श्रुत्या(ति-आ)र्यर्थव्य- -न्यम्
काथी १, ८, ५; मीम् १०, ७,
५६.

श्रुत्यु(ति-उ)क्त- -क्तम् अथ
२३, ७, ५.

श्रुत्ये(ति-ए)कदेश- -वाः मीत्
४, ३, १०.

श्रुत्वा काथी १, ३, २३^{११}; काथी.
सूयमाण- -वाः द्विषी १, १, २३;

-कम् काथी ९, १, ३; वैश्री ३,
१ : ५; द्विषी; -णानि आपथी
९, १, २; भाथी ९, १, २; द्विषी
१५, १, २; -णे निवृ १०, ७ :

१०; मीथ १८, १६.

श्रोतक- -न्यम् विष १००, ३.

श्रोतम् विष १, ४९.

श्रोत्- -वा कथा १५, २; -तृणाम्
सु ३१, ८.

श्रोत्र^{१२}- -वात् ४, १६८; पाग ४,
२, ३८, ५, ४, ३८; -न्यम् काथी
१, ४, ९; १३, १; ३, २, ९; ५, ६,
११; ६, १, ३; काथी; वीथी
९, ७ : ८^{१३}, -त्रयोः काथी १७,
५, ११, आपथी १२, २५, १;

माथी २, ४, १, ३५; वैथी;
-न्यम् वीथी ९, १४ : ६^{१४};

-वात् आपथी १६, ३२, ३^{१५};
वाधुथी ४, १०४ : ८; -त्राम्वात्
वीथी १४, ८ : ३५; पाण्ड २, ६,
२^{१६}; अथ ११, ३(३)^{१६}; -त्राय
आपथी १२, १८, २०; २०, १,
१७; वीथी; -त्रे शोथी ४, ७,
१३; वीथ ५, ३, १३; वासिष्ठ १,
१, २ : ४६^{१७}××; काथ; -त्रेण
शोथी ५, ४, १^{१७}××; आपथी;

वीथी २४, ३० : ८.

श्रोत्र- -वा ४, २, ३८; ५,
४, ३८.

श्रोत्र-व्युत्-प्राण-व्युत्- -क्षुपा
वीथ ४, १, ४.

श्रोत्र-वा- -वाः आपथी १७,
५, १६; वैथी १८, २१ : १६;

द्विषी ११, ८, १०.

श्रोत्र-वा- -वाः काथी ५, ६,
११; काथी ४, ७, १३; वीथी ७,
१४ : ४३; -वायाम् वीथी ७,
१२ : ४९.

श्रोत्र-प्रतिवृत्त- -न्यम् वीथ
१२, ४.

श्रोत्र-सुप्त- -न्यम् शैथि ३५७.

श्रोत्र-स्वप्न- -न्यम् आपथ १, ५,
१६; द्विष १, २, १६.

श्रोत्रा (त्र-आ)त्ना (सप्त-अ)त्र-
लोमन्- -न्याम् वैथी १६, ७ :
१३.

२^{१८}श्रोत्र^{१२}- > श्रोत्र-भाव- -वः पावा
५, २, ८४.

श्रोत्रिय- -वा २, १, ६५; ५, २,
८४; पाग ५, १, १३३; पावा ५,
२, ८४; -वः आपथी ११, २,
१०^{१९}××; भाथी; आपथ २, १७.

a) अथवा इति पाठः (उ. के. लानन्द) । b) उ. लाल. १ अथवा इति सलिल. । c) इत्. ।

d) अथवा इति प्रयास. अथ. । e) मन्वन्वितः अथ प्र. । f) = १११. । g) वैथ १ द. । h) श्रोत्रम् इति
पाठः इति शोथः (उ. वैथ ४, ५, ४) । i) पागे. वैथ १, १०-१६ b द. ।

२२^३, -यम् वीष्ट ३, १०, २२,
 वाष्ट २, १४, १९, वीष्ट १, ७,
 ९, वैष्ट, -यस्व वाधी ५, ९, २,
 वाष्ट ४ १२, ३, पाष्ट १, ११,
 ६, गौष ५, ३१×५, गो २, ३४,
 -या वाधी १०, ७, ९, वाधी
 १५ १४, ८, १६, २२, २९, वीधी
 ३, १४ . ९, वाधुधी, -वाणाम्
 वाधुधी ३, ३९ २३, -वान्
 वाधी १६ ३, २९, वासिष्ट २,
 ३, २ ३, ३ . ५×५, वैष्ट,
 -वाय आपथी १३, ७, ८, वीष्ट
 ३, ११, १, वैष्ट, -ये वाष्ट ४, ४,
 २७, वाष १९, ३७, वाष ४६,
 गौष १४, २१, -येण वाष
 १४४, -वेभ्य आपथ १, ३,
 ३४, द्विष्ट १, १, १०९, -वै
 वैष्ट ३ २ ३, २२ १४

२ओत्र- पा ५, १, १३०

ओत्रियक- पा ५ १,

१३३

ओत्रिय द्रव्य- न्यम् वाध

१६ १८, शय ३००

ओत्रिय-अदकित राज य

पुरुष- पं गौध १२, ३५

ओत्रिय-राजन्व प्रदकित ना

सुष्यहीन- नभ्य वीध १, १०,

३६

ओत्रिय (व न) ऋषि उपा

ध्याय मित्र-पन्थ (को-श्र)

मिगसन- नम् विष ३६ ६

ओत्रिय वृत् पावा ५ २ १२

ओत्रिय-वीर-पथी- वीनाम्

शय ३०१

ओत्रिय-सरया- न्यायाम्
 आपथ १, १०, ११, द्विष्ट १, ३,
 ४०

ओत्रिया(स ऋ)गार- गार
 आपथ ५, १६; वासिष्ट १, ६,
 ३ : ५४, २, ७, १ : ३×५, वीष्ट

ओत्रिया(ग ऋ)नृपान-
 नस्य वैधी १३, १५ ५

ओत्रिया(ग ऋ)न्यायाम- ये
 आपथ १, १०, ११, द्विष्ट १, ३,
 ४२

ओत्रिया(स ऋ)लाय- मे
 कौम् ९१, १९

ओत्रिया(ग-अ)गराव्यं-
 न्यायान् आपथ २, २५, ८, द्विष्ट
 २, ५ १८६

ओमत्र- -तेन मत्रा ८, ४०†

ओम्वत्- न्यव आधी ८, १४, ३

√श्रु, श्रा° पावा न्या वदा पर पाके,

ध्रपयति वाधी ४, १८, ८, वाधी

६, ६, १५, ७, १४, आपथी,

अधययति वाधी २०, ७, ८, वीधी

२, ९ . ३४×५, माधी, अधययान्

तेत्रा ९, २३†, ऋषययतु आपथी

१, २५, ८, वीधी १, १० ८,

माधी, अधययान् वीधी ११, ५

१७, १५, ३१ २६, द्विष्टि ५

५, ऋषयय आपथी १७, २२,

२, द्विधी १२, ६, २६, ऋषययत

आपथी १, २५ १०, वीधी १,

१० १२, १८ १२×५, माधी,

अधययतु आपथी २, ६, ८, आपथी

२, १५, २, १०, १६, ९, वीधी,

अधययतु वीधी १५, १४ १३,

२१, २४ : २३×५, अधयय ५, ५
 अधयते वीधी २४, २६ : ११†,
 द्विधी ८, ५, ४०, अधयते वाधुधी

४, १२ १०, द्विधी १, ६, १,
 ५, ५, ४, ९, ६, १८, १४, ५, ५०,
 म^१ -> म-मात्र- न्य पावा ६, १,
 २७

म^२, वा° - न वाधी १५ ३, २९,
 ऋषयय २, १०, ६, १२, १९,

५^१×५, वीधी, -तम् वाधी ६,
 ८, १०; ऋषयधी ६ ८, १, ७, ८,
 ८, आपथी, द्विधी १७, ४, २६†,
 २७†, द्विष्ट १, १६, १७†, १९

-तस्य वाधी ४, २, १९†, आपथी
 २, २०, ४, ७, १४, १३, १५,
 १९, ७, वीधी, -ता वाधी ६,

६, १८, आपथी १२, १९,
 ५†, माधी ७, १५ १०†, -ता
 आपथी १२, १९, ५†, वीधी

१४, १९ . ५, वा ४, २५ -तान्
 वैधी ९, २ ४, -तान् गोष्ट ३,
 १०, १३, -तानि वाधी २, ६,

३१, आष्ट १, १०, १२, -तान्
 आपथी ६, १५, ३, माधी १, ८,
 ४, २७†, वाधी १ ६, ६, २†, वाध,

-ऋषयय आपथी १३, ३, ३,
 वीधी ८, ३ . ९, द्विधी २ १,
 ३०, -तायाम् वाधी ६, ६,

१८, वीधी २ ९ ३४, ४, ७
 ७, वीष्ट २ ११, २५, -ऋषयय
 आपथी १२, १२, १३, द्विधी ८,

३, ४२, -तासु आपथी २०,
 १८, १५, वीधी १८, २२ २,
 द्विधी १४, ४, २४, -ते वाधी

a) पाणि १ ११५ ह्र द । b) वैष १ ह । c) पावा ६ १, २७ पराष्ट ह । d) वात्र <√वा ।
 e) विष्ट, नाप (पन्थ) । f) सङ्गत स्या काष्ठ ३५, ११ क ष्ट ११ अत्रि इति पाणि । g) पाठ १ सतम्
 इति शोध (ह्र [असत] १ ५६३ d) । h) पाठ १ सतम् इति शोध (ह्र आपाण १, १३, ६, Botic [DMMG
 ५९ ८४]) । i) सत्र आपथी ७ २०, ४ प्रथ सुष्यताम् इति पाणि ।

४,४,७; २५,४, ३८; आपथी
 ७,२२,११; २०,२५,२; काठथी;
 -तेन काथी १३, ६, ३१; काथी
 २२,९,१०; काथीसं २९: २४;
 आपथी: १४, २४, १४x
 वीथी: -तृतेभ्यः आपथी १३, ३,
 ३; वीथी ८, ३: १०; हिथी
 २,१,३०; -तेषु माथी १,८,५,
 १; आथिष्ट ३,५: १०; -तैः
 काथी १४, २,१७; आपथी ७,
 २५,७; वैथी १०,१९: ७; -तौ
 काथी २,५, २५; आपथी १२,
 १९,५^२; काथी.
 श्रुत-कलश- -शम् वीथी १८,
 ३०: ४.
 श्रुत-कर्तृ^०- -तारम् माथी १, ८,
 ४,२५^१.
 श्रुत-कार- -तैः आपथी १२,
 १९,४; १३,२,७; १४, १०, ६.
 श्रुत-कृत- -तः आपथी १३,
 ३,३; वीथी ८,२: ९; हिथी
 ९,१,३०.
 श्रुत-कृत्य वीथी १४,१२: ९.
 श्रुत-स्व- -स्वाम वीथी १४,
 १८: २९.
 श्रुत-दधन्- -न्त आपथी १५,
 १०, १२; काथीसं ३६: १५;
 माथी ११,१०, १३; वीथी १३,
 १२: २०; हिथी २४, ४, १०.
 श्रुत-दधि- -धि आपथी १५, ६,
 २३.
 श्रुत-वद् मीद् १०,१, ३०.
 श्रुत-यत्- -यद् आथिष्ट ३,
 ८,२: ६२; वीथि १,१५: ६५.
 श्रुत-धीत^०- -तम् माथी २, २,

५,२९; -तेन आपथी १२, १४,
 १२; माथी २, ३,५, ६; वैथी.
 श्रुत-श्रुति- -ति: मीद् ६,५,९.
 श्रुत-स्थान- -नम् वीथी २९,
 १०:१६; -ने वीथी २७,१३:६.
 श्रुत(त-आ)लक्षणे- -क्षयम्
 आपथी ११,२१, ८^१; १३, ९,
 ६; वीथी ६, ३४: २x४; वैथी;
 -क्षयेन आपथी १३, ९, ८; १६,
 २७,५; वीथी ८,९: १६; वैथी.
 श्रुत(त-अ)वदान- -नम् काथी
 २,६,४२.
 श्रुत(त-अ)श्रुते(त-उ)पदेश-
 -शात् मीद् १०,७,९.
 श्रुते(त-उ)पदेश- -शात् मीद्
 ९,४,४०.
 श्रपण^०- -णम् काथी १,८,३५; २,
 ५, २३; ४,१,२; ७,४,२४x४;
 आपथी: -णस्य^१ काथी २, ३,
 १; १२; २७; ५, ११; -णान्
 मीद् १०, १, ५३; -णानाम्
 मीद् ९, ४, ४२^१; -णानि वीथी
 १,८: २१; -णाव वीथी १५,
 १५: ८; -जे वीथी २०, १६:
 २८; २२: १०; २९: ७x४; मीद्
 ९, ४, ३०; -जेन वीथी १६, ४,
 १२.
 श्रपणी- -णीषु वीद् ६५, ४.
 श्रपण-काल- -ले वैथी १२,
 २२: ७.
 श्रपण-धर्म- -र्मा: आपथी १,
 १०, १८.
 श्रपण-पेपण-विपर्णास- -से
 काथी ५, ८, १७.
 श्रपण-वद् मीद् ११, २, १६.

श्रपण-श्रुति- -ते: मीद् ८, १,
 ३९.
 श्रपण-संयुक्त- -कानि हिथी
 २, ७, ६.
 श्रपणा(त-अ)थे- -थम् हिथी
 ४, ४, २३; -थेन हिथी ३, ८, ५४.
 श्रपणा(अ-स्व- -त्वात् मीद्
 ९, ४, ४३^१.
 श्रपयत्- -यत् अथ २, ४, १६^१;
 -यन्तः आथिष्ट ३, ५, ६: १०.
 श्रपयित्वा आपथी २, ७, १९x४;
 राथी.
 श्रपयित्वात्- -न्वात् पाठ २, १७, ८;
 वीद् ६७, २६.
 श्रपयमान्,णा- -ना: वैथी १५, २४:
 ९; हिथी ८, ५, ४०; -णम्
 अथ १, ५; अथ ४५, १, ६^१;
 वीथ ३, ६, ३; विथ ४८, ४;
 -णाथाम् आपथी ३, ४, १; -जे
 वीथी ८, २१: ४; वीथ ३, ६,
 ११; विथ ४८, ५.
 श्रा(श्र>)णा-> श्राथिक्- वा ४,
 ४, ६७.
 श्राश्र- -तः आपथी १३, ३, ४;
 माथी ४, ५, ४; वैथी; -तम्
 काथी ५, १३, ५^१; ६^१; राथी;
 -ता: राथी १०, १७, ६.
 श्रृगाल^१- -ले: शंष ३७७: २३; -ले:
 विथ ४३, २४.
 श्रृगाल-शुक्ल-इन्द्रि-कम्पाद-आत-
 रतो(र-उ)श्रृ-गाल-नामि-विश्व-
 राह-मो-नातुप-मांस-भक्षण-
 -मे शंष ४१९.
 श्रृङ्खल,ला- पाठो २, १, ११८; पाठ
 २, ४, ३१.

०) शतेन इति पाठः? यति. शोषः (डु. धर. आपथी प्र. ५)। १) श्रुत-
 जप-वत्) मन्त्र-। २) कप.। ३) भागवतार्थे प्र.। ४) श्रुत-
 १) श्रुत इति पाठः? यति. शोषः। २) श्रुत-
 ३) श्रुत-
 ४) श्रुत-
 ५) श्रुत-
 ६) श्रुत-
 ७) श्रुत-
 ८) श्रुत-
 ९) श्रुत-
 १०) श्रुत-
 ११) श्रुत-
 १२) श्रुत-
 १३) श्रुत-
 १४) श्रुत-
 १५) श्रुत-
 १६) श्रुत-
 १७) श्रुत-
 १८) श्रुत-
 १९) श्रुत-
 २०) श्रुत-
 २१) श्रुत-
 २२) श्रुत-
 २३) श्रुत-
 २४) श्रुत-
 २५) श्रुत-
 २६) श्रुत-
 २७) श्रुत-
 २८) श्रुत-
 २९) श्रुत-
 ३०) श्रुत-
 ३१) श्रुत-
 ३२) श्रुत-
 ३३) श्रुत-
 ३४) श्रुत-
 ३५) श्रुत-
 ३६) श्रुत-
 ३७) श्रुत-
 ३८) श्रुत-
 ३९) श्रुत-
 ४०) श्रुत-
 ४१) श्रुत-
 ४२) श्रुत-
 ४३) श्रुत-
 ४४) श्रुत-
 ४५) श्रुत-
 ४६) श्रुत-
 ४७) श्रुत-
 ४८) श्रुत-
 ४९) श्रुत-
 ५०) श्रुत-
 ५१) श्रुत-
 ५२) श्रुत-
 ५३) श्रुत-
 ५४) श्रुत-
 ५५) श्रुत-
 ५६) श्रुत-
 ५७) श्रुत-
 ५८) श्रुत-
 ५९) श्रुत-
 ६०) श्रुत-
 ६१) श्रुत-
 ६२) श्रुत-
 ६३) श्रुत-
 ६४) श्रुत-
 ६५) श्रुत-
 ६६) श्रुत-
 ६७) श्रुत-
 ६८) श्रुत-
 ६९) श्रुत-
 ७०) श्रुत-
 ७१) श्रुत-
 ७२) श्रुत-
 ७३) श्रुत-
 ७४) श्रुत-
 ७५) श्रुत-
 ७६) श्रुत-
 ७७) श्रुत-
 ७८) श्रुत-
 ७९) श्रुत-
 ८०) श्रुत-
 ८१) श्रुत-
 ८२) श्रुत-
 ८३) श्रुत-
 ८४) श्रुत-
 ८५) श्रुत-
 ८६) श्रुत-
 ८७) श्रुत-
 ८८) श्रुत-
 ८९) श्रुत-
 ९०) श्रुत-
 ९१) श्रुत-
 ९२) श्रुत-
 ९३) श्रुत-
 ९४) श्रुत-
 ९५) श्रुत-
 ९६) श्रुत-
 ९७) श्रुत-
 ९८) श्रुत-
 ९९) श्रुत-
 १००) श्रुत-

शुद्धल-क^० - पा ५, २, ७९.

शुद्धल. शुद्धल-लोदिन्^० - (>शार्ङ्गं
L. शुद्धललोदि- पा.) पाग ४, १,
१६.

शुद्ध (वर्षा.)^० - पाठ १, १२६; पा ४,
१, ५५; पाग २, ४, ३१; ४, १, ४१;
५, २, २४; ३, १०३; -कम् वाथी
१२, १८, १, काथी ६, ३, २४;
अप ५०, १, ३; ४; ९, ३; ७०^१,
७, ५; पा ६, २, ११५; वा २,
७^२; -पूजा आपथी ५, १७,
४; वैथी १, १४: ४; द्विथी; या
१३, ७^३; -आणाम् अय ५०, १,
२; अय ४, २९^१; -पूजाणि
आपथी ७, २८, ३; वैथी १०,
२१: ११; द्विथी; निष् ३, १३:
२९३; निष् १, १०^१; -आत्
आमा ३, ४, ११; -जे आपथी
१२, १, ६; वैथी ४, १: ३; २४,
८: ५; माथी; -हेम विष् ८६,
१; -पूजेभिः आपथी ४, १०,
४; माथी ४, १५, ३; द्विथी ६,
३, २.

शुद्धी - मा ४, १, ४१^१; पा,
पाग ४, २, ८२.

शुद्धार्ङ्ग^० - शार्ङ्ग विष् १३, ३.

शुद्धार्ङ्ग^० ->शार्ङ्ग-धसुर-धर^०-
-०२ विष् १, ५१.

शुद्ध-क- पागम १, १२.

शुद्ध जह- पा ५, २, २४.

शुद्ध-दन्ता(न्त-अ)विष्-मय- -यम्
विष् २३, ४.

शुद्ध-वत् वाति १, ६९.

शुद्ध-यत् -यन्तम् शंघ ११६: ८;
-वात् वीथी ५, ५: ७.

शुद्ध-यत् -कैः आपथी १९, १, ३;
माथी ५, २, ११, २७; वाथी ३,
२, ७, ५४; द्विथी २३, १, ५५.

शुद्ध-संयुत- -न्तम् विष् ८७, ८.

शुद्धारक- पावा ५, २, १२२.

शुद्धा(ङ्ग-अ)विष्-दन्त-मय-
-पागाम् विष् २३, २३.

शुद्धिग- पा ५, २, ११४.

शुद्धिन् - द्विगः अय ४३, ५, ६१;
-द्विगम् वाठथी २५; अय १,
३१, २; ७१, ७, ३; वा ६, १९^१;

-पूजाणाम् आपथी ७, २८, २;
वैथी १०, २५: ११; द्विथी;

-द्विगि अय ७२, १, ४; -द्विगि:
वीथी १८, ४१: ११.

शुद्धो(ङ्ग-उ)दक- -कम् विष् २३,
५९; -कैः वीथी १, ५, १२६.

शुद्धय- पा ५, ३, १०३.

शुद्धाट^० - पाठमो २, २, १००.

शुद्धाट-क->अ-कशेरुक- -कम्
शंघ २००.

शुद्धाटक-गवेषुक- -कम् शंघ
२२२.

शुद्धार^० - पाठ ३, १२६; पाग ५, २, ३६

शुद्धारवि- पा ५, २, ३६.

शुद्धारि^० ->रि-मदि- -वात् अय
६८, १, १४.

शुद्धिवेर- पाठमो २, २, ६१.

शुद्धाणिका^० ->का(ङ्ग-अ)श्वान-
(शु-आ)कम्भ- -मे द्विष् १,
५, १३^०.

शुष्णत्- ✓शु (अवने) द.

शुत्त- प्रश्. ✓शु (पाके) द.

शुत्त- पाठना ५, ४९.

✓शुष् (वर्षा.)^० पाधा, भ्वा. आग.

कन्दकुसायाम्; उम. उन्दने;
युता. उम. प्रहलने, शर्धति अय

४८, ३०^१; शर्धति वा ४, १९^१;

पूषार्धं आथी २, ११, ९; १२, ५;
१८, १०; ३, १, ४; आपथी ३,
१५, ५; माथी ५, १, ५, ११; वीथ

१, ४, १३; अय ३, १००.

पूषार्धं^० - धर्म आथी २, ११, १४;
७, ४, १३; ७, ६; वीथी १०, ३, ९;
३, १५; अय २, ५, ५४; हृदे ३,
११८.

शर्ध-जह- पावा ३, २, २८.

शर्ध-अ(ङ्ग->)वी^० - -वी
आपथी ३, १५, ५; माथी ३, १३,
८; माथी ५, १, ५, ११.

शर्धत्- -धंताम् आपथी १४, ३३,
६; माथी ६, २, ३, २१; वाथी.

पूषार्धर्ध^० - धं; आथी २, १८, १६;
८, १०, ३; वाथी ७, २७, १४;
आपथी १, २३, १; माथी; निष्

a) = [आश्रमव्यवस्था-पाठ-] धर-म. । b) पाका. पाठः । शुद्ध इति पाठि. । c) व्यप. । उम. ।
d) नाप. (विषाण- द्विषार- [शंघ-] प्रयु.), व्यप. (कम्भ. मुदे.) । वैष १ द. । e) पाठः । शुद्धाराण्यम् इति शोष-
[द्व. प्रकरणात्] । f) उज्ज्वल-नामम् । g) = शोषधि-विशेष- (त. पागम.) । h) = [शुद्धशोष-] विष्-
विशेष- । विषार(वीथी) अय प्र. । i) = विषाण-विशेष- । j) = विष्णु- । k) = कल-विशेष- । व्यु. ? । <शुद्ध +
✓शु दत्ति श्च. लया. शक., <✓अ इति पाठमो. । l) माप., माप. । व्यु. ? । <✓शु इति पाठ., <✓अ
इति पाठमो., <शुद्ध- + ✓अ इति अमा. शक. । m) = दैत-विशेष- । n) = विश्वाणिका- । o) स्या. आपथ
१, १६, १४ शिष्या इति पाठि. । p) पा. धीनेम वृत्तिः । r) वैष १ द. । s) = [उषरान्द-वृत्ती-] संवाजा- ।

२, १^३; अथ ४८, १०२^०;
 -धांसि आपथी ३, १५, ५.
 शृष्- पाठ १, ११.
 शृष्भाव- √शृष् (पाके) द.
 √शृष् √शृष् (हितावाप्तु) द.
 शोकु- पाठमो २, १, ३८.
 शेकु- पाठ ८, ३, १७.
 शोकुच्छमावद्- अत्रा २, ४, ६.
 शेखर- पाठमो २, ३, ३९; पाठ २, ४, ३१०.
 शेप^१- पाठमो २, २, २०७; -पः ऋष्य ४६, ६, २; ४८, १२३; अर्ष ३: ३१^१; अथ ६, ७२; वा ३, २१^१कृ; निघ ३, २१^१; वा ५, ८; २, २; १०, ४२; -पंथम् आश्री १५, २३, १; आपर्ष १, ११, ६^०; पाठ १, ४, १६^०; काण २५, २२^०; हिर्य १, २०, २^०; वा ३, २१^०; ९, २.
 शेप-हर्ष(ण>)गी^०- गीम् शौच २, ५६५.
 शे(ण>)व्या^०- व्यावाम् कौश ४८, ३४.
 शेप्या-कड- डे कौम् ४८, ३३.
 शेपतादन्तः आश्रित २, ४, ६: २०.
 शेपस्^१- पाठ ४, २०१; अथ ७, ९०^१.
 शेपः-अथ-काम- -मः अथ ६, १०१.
 शेपाल- पाठ ४, ३८.
 शेफ^२- ऋष्य आश्री १५, २९, ३५९;
 आश्रित १, ५, ३: १२^०; कौश १, ७, ४४^०; भाण १, १५, १५०,
 हिर्य १, १४, ७^०, शैव १, २१:

१३०.
 शेफस्- पाठमो २, १, ३३०.
 शेफालि(क)>का- पा, पाण ४, ३, १६७.
 शेफस्^१- -०भ अत्रा ३, ४, ११^१.
 शैफरभ-क^०- -०क कौम् १९, ९;
 अथ २, २४; अर्ष १: २४; २: २२; ३: ८; अत्रा ३, ४, १.
 शेरिप->शैरिपक- पा.) पाण ४, २, ८०.
 शेर- √शी द.
 √शैल् पाथा. भा. पर. मती.
 शेला->√शैलाव पा.) पाण ३, १, २७.
 शेलु- पाठमो २, १, १०५.
 √शैष् पाथा. भा. आप. सेवने.
 शेव, वा^१- पाठ १, १५२; १५४;
 -पः वा १०, १७; -वम् निघ ३, ६.
 शेव-वि^०- -विः वाय २, ८, विघ २९, ९; वा २, ४^०; िः -विम् माथी २, ५, ५, २१.
 शेव्य^०- -व्यः आश्री ८, १२, ७^१.
 शेवल^०- -पठम् आपर्ष २, ११, २०;
 पाठ १, १६, २.
 शेवल-दध-> शेवलिक-, शेव-लिय-, शेवलिक- वा ५, ३, ८४.
 शेवाल- पाठ ४, ३८.
 शेवाली (>शेवाली √क पा.) पाण १, ४, ६१.
 शैवृष्^१- -०च अत्रा ३, ४, १, -वम् माण १, ५, ५, अथ ४८, ६४;
 निघ ३, ६^१.
 शैवृष्-क- -०क अत्रा ३, ४, १.

शैव्य- प्रथ. √शिवि द.
 शैव्य^०- -पः तु ९, ३; -पम् संघ ११६: १; -पत्य पाण ३०: २५.
 शेप-सर्वद्व-ग^१- -गम् विघ १, ४०.
 शेपा(व-अ)हि- -हे: विघ १, ३१.
 शेपाहि-कण-रत्नो(न-अ)कु-दुर्विभाव्य-मुखा (ख-अ)-मुना^१- -गम् विघ १, ४१.
 शेपस्- √शिवि द.
 √शै पाथा. भा. पर. पाके.
 शेकयत- पाण ४, १, ८०^०; १५४^०; २, ५४^०, पाथा ४, १, ७९.
 शैकयत-भक्त- वा ४, २, ५४.
 शैकयतायनि- पा ४, १, १५४.
 शैकयता- पा ४, १, ८०; पाथा ४, १, ७९.
 शैकयतायनि- शैकयत- द.
 शैक्ष-, पक्षिक √शिक्षि द.
 शैखण्ड-, शैखण्डिन- शिखण्ड- द.
 शैखायनि- रशित- द.
 शैखावत-, स्वाव- शिखा- द.
 शैखि^०- -ख्यः बौधाय २७: ९.
 शैखिक- शिखा- द.
 शैखेय^०- -या: बौधाय १७: ३.
 शैश्रव- शिशु- द.
 शैश्रव- रशित- द.
 शैतायनि- रशित- द.
 शैतिकश- शिति- द.
 शैतन्य- शशित- द.
 शैतन्य-, शैतायन- रशित- द.
 शैन्य- शिति- द.
 शैविक- शिविका- द.
 शैवी-, शैव्य- शिवि- द.

a) = १५४. b) शक्य, शामाद इति संस्कृत्युः टि. । c) क. पाणम. । d) रेव १ द. ।
 e) पाके. रेव १ शेपम् अथ १०, ५५, ३७ टि. द. । f) १ २१३३ । द. । g) = शेप- । h) पाणे. १ १०८५ । द. । i) = मुष्- । j) अथ. संघा ३ शैवसे इति पाणे. । k) = नाग-विशेष- । l) = निष्णु- ।
 m) वृ. पासा. । शैकयत- इति माहता. प्रथ. । n) १ २४०२ d द. । o) अथ. ।

श्रीमद्- -श्रीः श्रीप्र २२ : १.
 श्रीरसि- रशिरस्- द्र
 श्रीरिपक- रेरिप- द्र
 श्रीरीप- १शिरिप- द्र.
 २श्रीरीप- २शिरिप- द्र
 श्रीरीपक- १शिरिप- द्र.
 श्रीरीपि- २शिरिप- द्र
 श्रीपया, पात्य- प्रमृ. शीर्ष- द्र
 श्रीशैल- प्रमृ शिला- द्र.
 श्रीशैल- -श्रीः श्रीप्र ४-१९.
 श्रीशैल- , श्रीशैलि- , श्रीशैलि-
 शिलाकि- द्र.
 श्रीशैललिन्- -लिन् श्रीप्र २३
 १.
 श्रीशैलिक्य- शिलिक- द्र
 श्रीशैलिन्- शिलिन्- द्र.
 श्रीशैल्य- , श्रीशैल्यक- , श्रीशैल्यि- शिल्य-
 द्र
 श्रीशैलेय- शिला- द्र
 श्रीशैल्य- शील- द्र
 श्रीशैय- , श्रीशैयव- , श्रीशैयपि- १शिव- द्र
 श्रीशैयल- पाठ ४, ३८, पाग ५, १, ३६,
 -लेन श्रीमि १, ६, ३
 श्रीशैयल मि(श्र>)या- -श्राम् प्र १७
 १, १७ ८
 श्रीशैयलित- पा ५, २, ३६.
 श्रीशैयकचि- शिवक- द्र
 श्रीशैययन- , न्य- १शिव- द्र
 श्रीशैयल- पाठगो २, ३, १२३, कि
 ६७
 श्रीशैय- रशिशु- द्र
 श्रीशैयिर- १शिशिर- द्र.
 २शैयिर- , शैयिरि- २शिशिर- द्र.
 श्रीशैयिरक- १शिशिर- द्र

शैशिरिप- , शैशिरिप- २शिशिर- द्र.
 शैशिरि- प्रमृ. √शिशु द्र.
 शैशुरेय- शैशुर- द्र.
 √शैशु पाथा. भ्या. पर. तन्परणे,
 †शिशुरीते निप ४, १; या ४,
 १८६, वाचा ६, १, ४५, †शि-
 शोव > ता श्रमा ७, १४, ८, १५
 शित- पा ७, ४, ४१, -ताः जैय २,
 ७ : ६१.
 †शिशिमान- -न. आश्री १, १२, २७,
 आश्री १४, २१, ३, आश्री.
 शोक- √शुक् (शोके) द्र.
 शोकी- -शुकी प्रम ४८, ७४, निप
 १, ७.
 शोक्- √शुक् (वषा) द्र.
 शोक्वत्- √शुक् (शोके) द्र.
 शोक्वत्- √शुक् (वषा.) द्र.
 शोक्न- , शोक्वन्ती- √शुक् (शोके)
 द्र.
 शोचि- , शोचिष्ट- , शोचिष्-
 √शुक् (वषा) द्र
 शोचोर- पाठगो २, १, ४८.
 √शोक् पाथा. भ्या पर. वर्णवत्थो .
 शोण- पा ४, १, ४३, -न कुक्
 २, ८ : १०१, -णा श्रीप्र १५,
 २४ : ५१, निम् ६, २ : १८,
 तैश्रा १३, १२
 शोणी- पा ४, १, ४३
 †शोण-कर्णे- -कं. आश्री १८,
 १०, २४, हिश्री १३, ७, २५
 शोणित- -तम् आश्री ३, ११, ५,
 आश्री २५, ११, २६, आश्री ४,
 ८, १, आश्री, -तस्य आश्री २,
 ७, ६ : १४, वा १४, ६, -ते अय

७०^१, ७, १२; ७१, १०, ५. -तेन
 विप ५, ६६; ६७.
 शोणित-शण्य-शण्य- -प्रा अय
 ७०^१, ११, २७.
 शोणित पुट- -टात् माष्ट २, ५, ३.
 शोणित-शुक्-संभव- -य वाप
 १५, १.
 शोणित(त-अ)तिरेव- -के या
 १४, ६.
 शोणित(त अ)भैव- -ये अय
 ६८, २, ५.
 शोणित(त-अ)धु-परिवाय-
 -य अय ६४, ६, २.
 शोण,णा- पाग ६, २, ८८, -णस्य
 विप ८५, ३३९.
 शोण,णा-प्रस्थ- पा ६, २, ८८.
 शोण- (> शोणायन- पा) पाग
 ४, १, ९९.
 शोय- पाठ २, ४.
 शोयन- प्रमृ √शुक् द्र.
 शोक- (> शोकिन्- पा) पाग ५,
 २, १३१.
 शोभ- प्रमृ. √शुक् द्र.
 शोशुचान- √शुक् (वषा) द्र
 शोय- , शोयण- प्रमृ. √शुक् द्र
 †शोयन्ती- -न्तीम् आपष्ट १४, १४,
 माष्ट १, २२ : १०.
 शोक- १शुक- द्र
 शोकेय- २शुक- द्र.
 शोक- शुकि- द्र.
 शोक- , शोकि- प्रमृ √शुक् (वषा) द्र.
 शोक्- , शोकि- प्रमृ शुक- द्र
 शोक्- प्रमृ √शुक् (वषा) द्र.
 श्रीचादिरेय- -य निम् ३, ४

a) वष । b) = शैवाल- । c) या ४, ३, ५, १३, १०, ५९ पा २, ४, ७८, ७, ३, ३७ पराम्ष्ट द्र । d) = शानि- ।
 √वष (= √वस् [आच्छादने]) > †शोकी- > [अन्त] †शोकी- > शोकी- (द्र निप १, २५२६ ।), [अन्त] ।
 वनि [वैव दे < √शुक् (शोके) [व अय]] इति वा, < शोक- (तेज्-) इति वा १ । e) निप १३ ।
 f) वत । g) = नदी-विशेष- । h) द्र पागम. । i) पाठः †शोयन् इति शोय. (द्र. Old, पाष्ट १, १६, १ च) ।

२५,३२.

√शौट पाषा. भ्वा. पर. गवे.

शौटीर- पाठ ४, ३०; पाग ५, १, १२४.

शौटीर- पा ५, १, १२४.

शौषायन- शोष- द.

शौषण्ड- प्रभृ. कुश- द.

शौषण्ड- शौषण्ड- (> षण्ड, षण्ड- भक्त- पा.) पाग ४, २, ५४.

शौषण्डायन- षण्ड- कुश- द.

शौषण्डकेय- षण्ड- पाग १, १६, २३०.

शौषण्डकेर- षण्ड- पाग १, ८ : १४०.

शौषण्डक- कुशिका- द.

शौषण्डीर- पाठ ३, ४८; पाग ५, १, १२४.

शौषण्डीर- पा ५, १, १२४.

शौषण्डीर- षण्ड- शौषण्ड ३ : ९.

शौषण्डीर- कुशिका- द.

शौषण्डीर- षण्ड- √कुश द.

शौषण्डीर- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- (> षण्ड-भक्त-),

शौषण्डीर- (> षण्ड-भक्त-)

शौषण्डीर- (> षण्ड-भक्त- पा.)

पाग ४, २, ५४.

शौषण्डीर- षण्ड- शौषण्ड २७ : ७.

शौषण्डीर- कुश- द.

शौषण्डीर- शौषण्डायन- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

शौषण्डीर- शौषण्ड- द.

१५; वीथी २, १९ : १२; ३, १२ : १९××; माथी; अधिदि शक्ति ३२०१.

द्वयमः वा ३, २११.

द्वयम- षण्ड- काशी ८, ४, १६; आषाढी ११, ८, ४; वीथी ६, २५ : १९; वीथी १४, ६ : १३; शिथी ७, ५, २६१.

शुशुष्टि- षण्ड- काशी १, २, १, १५.

शुशुष्टि- > शौषण्ड- षण्ड- काशी ७, ३, ११; -द्वयम- लुप्त ३, १० : १०.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ५, १२; शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

शुशुष्टि- शौषण्ड- षण्ड- काशी ३, ५.

a) = वाचस्पति-विशेष-। b) पाठे. इ २३५८ b द.। c) इ. पागम.। d) व्यय। e) षण्ड- इति पाठा, - शौषण्डकायण इत्यन्ते (इ. पागम.)। f) व्य.। <शौषण्ड- इति पागम., <शौषण्ड- इति ३१५१। g) व्य.। <वाचस्पति- (नष्टि-) इति पागम.। शौषण्ड इति पाठा.। h) इत्यन्ते इति सोपः (इ. G. प्रियम, भक्त इति)। i) इ. पागम.। j) पा. गती इति.। k) सप्त. शुशुष्टि <> शुशुष्टि (पै १९, ४४, २ च) <> तैत्ति ३, ७, ३, ६ आषाढी ९, ४, १ प्रभृ.। l) पा. गती इति.। m) सप्त. शुशुष्टि <> शुशुष्टि (पै १९, ४४, २ च) <> तैत्ति ३, ७, ३, ६ आषाढी ९, ४, १ प्रभृ.। n) पाठे. वैग १ तिग्रे शुशुष्टि इति पाठे.। p) इत्यन् इति पाठः इति यति. सोपः (इ. मा ५, २१)। q) = सप्त-विशेष-। r) = शौषण्ड-।

बीषि १,१५ १, -गन्ध वाधूरी
 ४,१०^१ ५, ८.
 इमशान कृत- -रम् जेष्ट २,५० २
 इमशान एटवाङ्ग-स(य>)वी^१-
 थीम् अप ३६ ७, २
 इमशान ग्राम- मयो गौषि १, ७,
 ४
 इमशान ग्रामात् महात्पथा (य अ)
 शौच- -जेष्टु गौष १६, १८
 इमशान चित्^१- चित् वीथी १७,
 ३० ६, -चित्तम् वीथी १७,
 ३० ११, द्विथी १२, ८, १५,
 आप्तु १४, ८^१, वीथु १२ ११,
 द्विष्ट ४, ४८^१
 इमशान चित- -नामि द्विष्ट ४,
 ४९
 इमशान देत- -ने वैष २, १२, ३
 इमशान-महावृक्ष-वल्मीक-
 ष्ठाया^१- वासु आमिष्ट २, ६,
 ८ ६
 इमशान-लोष्ट- एम् आप्तु ३, १५
 गाय १, ११ ९, १३, माष्ट
 इमशान-वत् आप्तु १, ९, ९, द्विष्ट
 १, ३, ९
 इमशान-बहि- -द्विना वैथी २०, ८
 ९
 इमशान वृक्ष-शाप- -नानु वाध
 १५७
 इमशान-शुन्वालय-देवतावतन-
 -जेष्टु विध ७०, १३
 इमशान-सद्- सदे गाय १, १३,
 १३, गाय १५, ७
 इमशान-भस्त्रुत- -वा आप्तु १,
 २५, द्विष्ट १, ३१.

इमशान-सचय- -य. वा ३, ५
 इमशान-सक्ति- -सपाम् शौष्ट ८६,
 १६.
 इमशाना(न अ)गि- -गि आमिष्ट
 २, ७, ४११०, शौष्ट ४, १०, २
 इमशाना(न-आ)दि- -व्यतिक्रम- -ने
 वीष्ट ४, ३, २^१
 इमशाना(न अ)धि- -व्यतिक्रम- -से
 आप्तु ६, ४^१
 इमशाना(न अ)नल-देवत- -नामि
 अप ३, १, ५
 इमशाना(न अ)मत्- -मते वाध १३,
 १३
 इमशाना(न-अ)मत्^१- -मत् विध
 २, ३
 इमशाना(न-अ)मिसुल- -खेल
 कामिष्ट ३, ४, १ ११
 इमशाना(न-अ)म्यभयन- -ने गौष
 १, ६६^१
 इमशाना(न-अ)यतन- -रम् द्विष्टि
 ३ ७, १३ ७x४, गौषि १, २,
 १०, ११, -नाष्ट द्विष्टि १३ ५
 इमशानायतन महावृक्षकाया-
 वासु आमिष्ट २, ६, ७, ३८
 इमशाना(न-अ)पिथ-विवाहित- -ने
 वाध २१, ४, १.
 इमशानि(न-ई)क्षण- -यम् वैष्ट ५
 ३ २
 इमशु^१- पाठ ५, २८, -^१शु शांष्ट १,
 २८, १५^१, गाय १ २१, १४^१,
 शौष्ट ५३, १८^१, या ३, ५४^१
 -शुष्पा पावा ८, ४, ६३, -शुनि
 आप्तु १, १६, ११, द्विष्ट १, ५,
 १०, वाधि २, ४१, -शुनि

वाधी २, १६, २४, शाधी १५,
 १७, ११^१, आप्तु
 इमशु-कर्मन्- -मेषि विध २२,
 ६८
 इमशुकर्मा(मं अ)व्यजन रगन-
 -ने वीष्ट २, ११, ७
 इमशु केश- पाग २, २, ३१, -सात्
 वाध २४, ५
 इमशुकेश-कृष- -पानाम् विध
 २६, ८५
 इमशु मत- -त वाध ३, ४०
 इमशु अव- पाग २, २, ३७
 इमशु-म^१- -ग आप्तु १०, ३१,
 ६, भाधि १२
 इमशु मत्- -मान् वीथी २१, १२
 ३०^१
 इमशु-ल- -ल वैथी १२, २ १५,
 द्विथी ७, ३, २१, -लम् वाधी
 १, ६, ३, २५
 इमशु-शब्द- -व्दान् गाय १, १८,
 ३
 ✓इमील् पाथा म्वा पर निमेषणे
 इयमाक^१- (> इयामाक- पा)
 पाग ४, १, १०४
 इयवक^१- (> इयावक-)
 श्यातयाति^१- -तय वीथी ४८ ५
 इयापर्ण^१- पा, पाग २, ४, ६७, ४, १,
 १०४
 श्यापुत्र^१- (> श्यु-)
 श्याप्रथ^१- (> श्यप्रथ- पा) पाग
 ४, १, १५१
 इश्याम, मा(परा)^१ - पाठ १, १४५,
 पाग ३, १, १३^१, ५ २, ९७, -म
 आधी २, ४, ६, शाधी १६ ३, ३१,

a) एटवाङ्ग- इयस्यार्थे ३। b) वैष १ इ। c) इत् > इत् > पत् । d) परस्पर पागे ।
 e) पत् । f) पागे वैष १ श्लोमस्य शौ ६, ६८, ३ टि इ । g) पागे वैष १ इमशु शौ ६, ६८, ३ टि इ ।
 h) पत् । i) इ पावा । इयामक- इति भाष्ये पाति । j) समक- टि इ । k) पृ २४३६ इ इ ।
 l) इयप्रथ- इति भाष्ये (इ पावने) । m) = वृष्, उद-वत्- वा । n) इ पावने ।

काश्री १५, २, १४, ३, १६, वाश्री,
 आपम २, १६, २१^०, भाग २, ७
 ८^०, -गम् वीश्री १०, ५७
 ९, १२, ४. २९×४, द्विश्री,
 -मा कौम् १०६, ७^०, -मा
 काश्री १५, १, २२, आपश्री २०,
 १४, ७^०, द्विश्री १३, १, २२×४,
 अम २१, ६, ४^०, ६८, १, २८,
 -मान् आपश्री १८, २, १३,
 वीश्री ११, ३ ३०, वाश्री, -मेव
 कौम् १४, १०^०, अम ९, ५^०
 श्याम गौर- रे ऋषा १७, १४
 श्याम-उत्तर () या ४, ३
 श्याम-तारा प्रह-गण^० -अम्
 अम ६८, १, ४^०.
 श्याम तूर- र. काश्री १६, १,
 ३३, -रान् काश्री १४, २, १३
 श्याम रूप- वाशि कौम् २, ७,
 २३
 श्याम ल- पा ५, २, १७
 श्याम शयल- लाम्याम् आमिष्ट
 ३, ५, ७ २०, ८ ६, वीधि १,
 ६ १४, द्विदि ६ ११, -ले
 पाठ १, १६, २४, अम १, ४१, ८,
 अशा ११ ८
 श्याम सिकता- वाशि कौम् २५,
 १५
 श्यामा(म-आ)त्रिप^० -या वीश्रीप्र
 २७ ६.
 श्यामा(म-अ)उदात्त- ल अम
 ६८, १, २८
 श्याम^० -पाग ४, १, ११०, १२३
 श्यामायन- पा ४, १, ११०, पाग

४, ३, १०६^६
 श्यामायनिन्- पा ४, ३, १०६
 श्यामायनीय^० -या चण्डू २ :
 ७
 श्यामायनि- अयः वीश्रीप्र ४८.
 १^०
 श्यामेय- पा ४, १, १२३, -या.
 वीश्रीप्र १७ १७, ३१ : ७, ४८
 ११.
 श्यामायक^० - पा, पाग २, ४, ६७,
 ४, १, १०४^१
 श्यामायक^१ -क कप्र ३, ७, ९
 श्यामायक- श्यामाय-क.
 श्यामायक^२ -पाठभो २, २, १४, पा,
 पाग ४, ३, १५०, -क आश्री
 २, ९, १३, काश्री १५, ४, ८,
 वाश्री १, ५, ५, ६, -कौम् काश्री
 १२, १६, १, आपश्री ६, २९, १०,
 १४, ३०, ७, वीश्री, -कस्य वैश्री
 ८, २ ९, द्विश्री २२, ४, ९^०,
 जैष्ठ १, २४ १०, -का वीश्री
 २४, ५ १७, माश्री ६, १५, ७,
 छप्रा ४, १५५^०, -काय वीश्री
 २४, १० ५, -कान् आपश्री
 ६, ३१, १, १९, ५, ११, वाश्री १,
 ५, ५, १, द्विश्री २३, १, ८,
 -कानाम् आपश्री ६ २९, ३, ३०,
 १०, वीश्री, -ले आपश्री ६
 ३०, ७, द्विश्री ६, ८, १, -केन
 वीश्री २०, २२ ७^०, माश्री १,
 ६, ४, ३८, -केतु माश्री ६, १८,
 १, द्विश्री ३, ८, ४४, -कै
 आपश्री ६, ३१, १४^०, विष
 ८०, १

श्यामायक-चर- र काश्री ४, ६, १७
 श्यामायक जर्जला(ल-आ)दि-
 -दीनाम् वीश्री ३, २, १५
 श्यामायक लण्डुल तिल- अया अम
 २३, ७, २
 श्यामायक नीषार वेणुयव- -या
 वीश्री २८, १३ : २
 श्यामायक पात्र- अ आपश्री ९,
 १४, १४^०, द्विश्री १५, ४, २१
 श्यामायक पिष्ट- अदिनि वीश्री ९,
 १७, ७६, २८, १३ : ७, वीश्री
 ३, १०, ४
 श्यामायक मय- या निष्ट १०,
 ६ : १०
 श्यामायक यव- अनाम् गेष्ट ३,
 ८, ११
 श्यामायक-वर्ष वैश्री ८, २ ७
 श्यामायक-सक्तु- अतुभि वाश्री
 ३, २, ७, ६३
 श्यामायक(क-आ)प्रयण- आस्य
 वीश्री २८, १२ : १२, -गाव
 वीश्री २८, १२ १४, -गेन
 वीश्री १२, ३ ८, १५, १० ८.
 श्यामायक(क इ)ष्टि- अदि वाश्री ३,
 १२, १, -ष्टिम् आपश्री ६, ३१,
 १, -अनाम् काश्री २, १, ८
 श्यामायक^० - पा, पाग २, ४, ६७, ४,
 १, १०४
 श्यामूल^० - अने आपश्री २०, १७, ९,
 वाश्री ३, ४, ९, द्विश्री १४, ३,
 ५६
 श्यामायक^० (> श्यामायक-
 [> कालय-] पा दक) पाग
 ४, १, ३०४, १००

a) = बालमह-विशेष-। b) = कौपथि विशेष- (इ ती १, २४, ४ [ल सक्तुं टि १])। c) विपरीतहित-
 पाठ १ वनि शेष । d) वस > हस > पस । e) अय । f) तु पागम । g) = दाया- वा द-अर्थ-
 वा । h) भूयान् पथि सक्तुं टि द । i) वृ २४ ३४ । j) = श्यामायक-। k) वैत १ निर्दिष्टो-
 गानावश द । l) = और्ध्व वाचस्-। तम श्या<>स्ता^० इति पाठे ।

श्याल^०-का श्य ४३
 श्याय,वा(यथा)^०- पाठभो २, ३,
 १२७, -व काश्री २२, ५,
 १०, ८, ९, आश्री १६, ३४,
 ५, २२, ६ १xx, माश्री,
 -यम् माश्री ६, १, ८, १६,
 वाश्री २, १, ८, ९, वृदे ६, ५२,
 मश्रा १७ १६, -वा द्विथो ३,
 ७, ६३, वैशि २५५, -वा वैश
 २, ७ २५, अप ४८, १४५^०,
 निप १, १५५^०, वृदे ४, १४२,
 -वात् वृदे ३, १४५, -वावि
 उनिस् ८ १३, -वायाम्
 आश्री ६, १०, ३, -वै अप
 १ ३९, १५, १४, १, १५, -वैवी
 कौस् ४८, ४०, अश्र ७ १५, अप
 २: ७५
 श्यावी^०-वी अप ४८ ७४, ५,
 निप १, ७५, वृद ३, ८
 श्याव दत्- पा ५७, १४४
 श्याव हन्त- पा ५४, १४४, -न्त
 वाश १ १८, २० ६, ४४, काश
 २७८ ७, -न्तात् आश्रिथ ३,
 ११, १ ३
 श्यावदन्त क- -क विव ४५,
 ४
 श्याव नाय- (> श्य-, श्यीय-
 पा) पाग ४ १, १५१, २, ९०
 श्याव पुत्र^०- (> श्य- पा) पाग
 ४, १, १५१^१

श्याव-रथ^०- (> श्य- पा) पाग
 ४, १, १५१
 श्याव शयल- लो शंघ ११६
 २०, ३७४
 श्यावा(व-अ)व^०-०श आश्री १२,
 १४, १, आश्री २४, ८, ११,
 वीथीम २७: ११, द्विथी, वैश
 ४, ५, १२, मश्र २, ५, ५२,
 -व काश्री १४, ३३, २०,
 १६, ११, ८, मश्र २, ५, ५२,
 ६१xx, वृदे ५, ५२, ६९, ७२,
 कुम १, ३१७, २, ८०, ३, १३४,
 साश १, १४१, ३५६xx, -यम्
 वाश्री १६, ११, ७^०, वैथी २३
 ११, वैथीका ५७, दाश्री ८, १,
 ३४, काश्री ४, ५ २७, कुम्
 १, ३ ५, १३xx, निस्
 -यस्य आश्री ७ २, १२, काश्री
 ६, ११, ७, वृदे ५ ५५, ६०,
 ६५, वाश १ ३, -यात्
 दाश्री ८, २, १८, काश्री ४, ६,
 १४, -याव वृदे ५, ५६, ६४
 श्यावाव श्रौक^०-श्रे निस् ७,
 ८: ३३
 श्यावाव-त्रैदोका^०- -कयो
 काश्री ६, ११, ६, -के काश्री ६,
 ११, ४
 श्यावाव-वत् आश्री २४, ८,
 ११, वीथीम २७ ११, द्विथी
 २१, ३, १५^०, वैश ४, ५ ११^१

श्यावाव विकर्ण गौरीवित्त-
 (त-आ) श्यीगवौ (व-श्री)दल-
 नाय- -नाति दाश्री ८, ३,
 १०, काश्री ४, ७, १,
 श्यावाव वैश्रिण्डन- -ने कुम्
 ३, १० ८.
 श्यावाव(घ आ)श्यीगव^०- -ने
 कुम् २, ९: ८, निस् ६ ११
 ३६
 श्यावाविव- वि मश्र २, ९,
 १०२, काश १, ५४५
 श्यावा(व आ)श्य^०- -स्वाय पाठ
 १, ३, १८^०.
 श्यावक- स्ववृ- द्र
 श्यावप्रथ^०- (> श्य-)
 श्यावलि- (> श-) पाग ४, १,
 १०७^०
 ? श्यावदयास्वदयात्तुश्यायम्
 काश्री २ २८ ५
 ? श्यावान्तपर्यन्त^०- शौ आश्रिथ १,
 १६, १०, द्विथ १, ५ ९
 श्येत,ता^०- पाठ ३, १३, पावा १,
 २ ६४, -व काश्री १५, ३,
 १६, १०, ३, श्रा ४, १५५^१
 श्येती- ती माश्री ७, १५, १०^०
 श्येती^०- शी काश्री १५, ९, १३,
 -नीम् काश्री ५२, माश्री १,
 ६, १, ३६, ८, ४, २७, वाश्री १,
 ६, ६, २, वैथी १०, १६
 १, द्विथी ४ ४, ३३^१

a) नाय (शास्त्र इति नरा) । व्यु १ । <√शै इति कभा शक । b) वैप १ ६ । c) = सक्ति
 वाहन । d) = रानि । e) अप । वष । f) = श्यावुक्त- इति भोज (तु पावम) । g) 'श्व' इति
 पाठ ? यनि शोष (तु आश्री प्रम्) । h) = शास्त्राल विशेष- । i) = साम-विकेष । j) [साश्री] इत्स ।
 k) श्यावा इति पाठ ? यनि शोष । l) श्यावत् इति पाठ ? यनि शोष (तु आश्री प्रम्) । m) विप
 (श्री- [इ जयराम]) । वष । n) इ २४३४ । o) श्यावलो- इति पावा । p) विप (L-मधुवीमा-
 उपिण-] श्लो-) । वष पृ १ हसधय (धू-श) त- इति शोष [वैतु इरदत यनि साधिति कृषा श्याव- इति
 श्येताश्रीलोयप्रदेश-यर्थाय इति (तु [तात्पर्यत ! Boh]) । q) वैप १ निर्दिष्टयो समादेश द । r) सप्त
 आश्री ७, २०, ४ कर्णोद्विनीय इति पावे ।

इयेवी प्रुयती- नीम्याम्
 शीथी १५, १४, १३.
 इयेवी/छ, इयेवी अयुस्त तैप्रा १०,
 १८१
 इयेन(वप्रा)^{३००}- पाठ २, ४६, पाषा १,
 २, ६४, -न पूंशाथी छ, ७, ४,
 १०, ५×५, शीथी ५, १४, १९×५,
 १४, २२, ४०, काथी १३, १,
 ११, २२, ३, १०, आपथी,
 बौथी १८, ३६: ११०, लाथी
 छ, ५, १३०, छुम् ३, १०
 १३, १५, कौसु छ ५, ३०,
 अग्राम २, ५, ५, २, विध छ ४,
 १२, आपथु १६, २^{१५}, शीथु ५
 १६^१, श्रुञ्च २, १०, १८८^०, वा
 छ, २४, ६, ७^१, ११, १×५,
 -नम् आपथी ३, ३, ११^१, १२, ९,
 ३^१, शीथी ५, १७, ५^१, ६, १,
 ६^१, आपथी १९, २५, १८^१,
 बौथी १३, ३८, २^१, शीथी ५,
 २, ९, ७^१, हिथी २२, ६, ३^१,
 वैथी १२: १२^१, आभिय २,
 ५, १० ८^१, हिथु ५, २३^१^{१५},
 वा छ, २४^१, -नस्व छाथी
 ६, २, ८, ८, ३, २०, ५, १०,
 पैताथी ६, १^१, छम् १.४ ३,
 आपथु २२, २^१, हिथु ६, ६०^१,
 वुदे छ, १३६, मीसु छ, १, १४,
 -ना अण ७०^१, ५, ४, -^१ना:
 आपथी १२, ३, २, हिथी,
 -नाम् अण ५, २१^१, -नाम्
 उम् ५, ५^१, -^१नाम् आपथी

१३, १२, ४, वीथी, -^१नाम्,
 अण छ ८, १३, निध १, १४,
 -ने लाथी छ, ४, १८^०, -नेन
 आपथी २२, ४, १३^०, ७, १८,
 १३, १४, हिथी १७, २, १९, ३,
 १७, ५, ३४, लाथी ८, ७, १२,
 निम् ७, १. १५, १२. २,
 अग्राम ५, ६
 इयेन-कपोत- (> शीथ- पा.)
 पागम १९५
 इयेन-काका(क-भा)दि- -दीम् वैय
 ५, १३. २५
 इयेन गति^३- -ति नासि १, ६, १५
 इयेन गृध्रा (ध-भा)दि- -दीनाम्
 अण छ २, ३, ७
 इयेन-चित्त^३- -चित्त वीथी १७,
 २०: ८, २४, ५ ७, वीथु ५
 ११^१, -चित्तम् बौथी १७, २८
 ७^१, हिथी १२, ८, ३, आपथु
 १५, १^१×५, २२, ८, वीथु,
 -चिना आपथु २१, १, हिथु ६,
 ५९
 इयेन चिति^३- -तिम् हिथु ६, ६७.
 इयेन-देवताक- -कम् अण छ, ७०.
 इयेन-दैकव- -कम् अण छ, ४१
 इयेन-दत्र- -रम् आपथी १९, १,
 १७, ४, ९, वीथी १७, २१ ४,
 ३६ ५, वैथी ११, २ १३,
 -ग्रान्नाम् काथी १९, २, २६,
 -त्रे आपथी १९, ६, ७, हिथी
 २३, १, १६, -त्रेण आपथी १९,
 २, १२, वीथी १७, ३४: ७, ११,

१६, माथी ५, २, ११, २०,
 वाथी ३, २, ७, ६४, वैथी ११,
 ४. ४.
 इयेन-वर्ण- -वर्ण काथी छ २५. ६.
 इयेन-पाठ-> इयेनपा(त->)वा-
 पा ६ ३, ७१.
 इयेन-रूप- -वेण वुदे छ, १२६
 इयेन वत् काथी २२, ५, ३०.
 इयेन वज्रम् पैताथी छ ०, ६
 इयेन-शलाक-कवप कवप लेकारण-
 -वैपु मीसु ९, ४, २४^१.
 इयेन सद्^३- -सद् वीथी १०, ४५
 ३५, हिथी १२, ३, ८.
 इयेन सद्गंगा (श-अ)निर-वज्र-
 -त्रेण पैताथी ३९, ५
 इयेन स्तुति- -ति श्रुञ्च २, ४, २६.
 इयेन हत- -तम् काथी २५, १२,
 २०.
 इयेना(न आ)कृति- -ति हिथी १२,
 ८, ३, वीथु छ: २२, ८: २^१,
 हिथु ५-६, २
 इयेना(न-अ)निर- -राम्याम्
 काथी ९, ७, १, -री काथी १४,
 २२, ४.
 इयेन-वियम- -नस्व अग्राम ६, ६.
 इयेन^३ पाषा^३ म्या. आम् गती
 शीन-, शीनवत्- पा ८, २, ४७
 इयेत^३- -त् साध १, २३५, -उम्
 काथी छ २३, २, १५, ७, ४, वीथी
 २, १०. ३८^१, माथी छ, ४,
 ३१^१, वाथी १, ४, ३, ३१, वैथी
 ५ १८, २२. ११, वैथी

a) वैप १ द. । b) विशेष टि ३ । c) = एकाद-विशेष । d) = साम विशेष- । e) = इन्द्रवादि-
 सादयमान् । शरीरगत । f) = स्थेनचित्त- (अभिस्यारिजल-) । g) सत्र इयेन <> इयेनम् इति पाठे ।
 h) = शक्ति विशेष- । i) = [वपचारण] क्लृप्त- (मीसु ९, ४, २४ माथ्यम्) । j) पाठे वैप १ इयेनम् तं २,
 ४, ७, १ टि द. । k) पाठे वैप १ इयेनस्य अ १, १६३, १ टि द. । l) = अण । m) पय. ।
 n) शीरलेक इति पाठ २ मनि. शोध [टि] आन प्रम् । o) वा छ, ३, १४, १३ पराण्ट. द. । p) = शक्ति-
 विशेष- वा तद्वृद्ध- सामन्- वा ।

२, १८, ४, अण ४६, ५, ५.
 श्रेष्ठ- वा ५, १, १२४,
 -एगम् आधो १०, ५, १२; शोभो
 १५, ११-१२, १^१ x; पाशो,
 -एगस्य माण्ड १, २२, ११५^०,
 -एगम् द्विधो १०, ५, २५^१;
 -एगम् शोभो १०, १६, २,
 ८^१ ^१, आधो, -एग्ये शोभो १५,
 २७, १^१ ^१, शोभो १४, ०१ २०^१,
 निम् ७, १-४, शोभ ३, ४, ५^१ ^१,
 शाण्ड ३, ७, १^१, पाण्ड ३, २, ७^१
 श्रेष्ठ-कर्मन्- -मंण
 वृदे ५, १५६.
 श्रेष्ठ-काम- -म आधो
 १०, ३, २२, -मस्य आधो २२,
 १, ६, द्विधो १७, १, ८, जुम् १,
 १-११, वैताशो ३०, २^१, ४३,
 ४२; -माः आधो ११, ५, ६,
 -मेम जुम् १, २ : २७, २९
 श्रेष्ठ-तम- -म शोण्ड १,
 १९, ६^१ ^१.
 श्रेष्ठ-तम, सा- -मंण. शोभो ३,
 १४ : १, वैशो २, १० : १२, शोण्ड
 १, १२, ६^१, -मम् वैशो ११, ११-
 १३, -मा वैश ३, ३, ९, अण २ :
 ६३^१, -मंमाय शोभो १, १ : ११,
 माशो १, २, १५, अण ४६, ३, ३,
 पावा ५, ३, ५७, -मो ऋण २,
 १०, ५६
 श्रेष्ठ-तम् (.) लाधो ८, ११, २०
 श्रेष्ठ-न- वा ५, २, १००
 श्रेष्ठ-राव- -अ अण १, २७, ३^१,
 अशा ७, ३

श्रेष्ठ-गर्ण- > श्रेष्ठ-शीघ- -मम्
 निम् ७, ३ : ३५.
 श्रेष्ठिन्- -द्विनः अण ५८^१, ४, ६,
 -शिमि माधो ५, १, १०, २^१,
 -शो शोभो १०, ५६ : ६, १२, ९
 २०.
 श्रेष्ठि त्- -मम् वैश ३, १२,
 १२.
 ✓ श्रद्ध् पाषा. भ्वा आगम गतौ
 ✓ श्रद्ध् पाषा. भ्वा. पर गतौ.
 ✓ श्रद्ध्, ष्, पाषा. जुरा. संस्कारगत्यो
 संस्कारगत्यो ष.
 ✓ श्रद्ध् पाषा. जुरा पर दामे
 श्रणम्- (> श्रणम्- वा.) पाण ५
 १, १३०.
 श्रण्ड- पाण्डु १, ३७.
 श्रत्, द् वृदे २, ६५, शुभ १,
 ४१^१ ^१, निम ३, १०^१, पाण १,
 ४, ६१^१.
 श्रत् छ (< श्र) द- -दस्य पाषा १,
 ४, ५८-५९
 श्रत् ✓ क् वा १, ४, ६१
 श्रत्-मर्थ- -मम् पाषा ६, १, ९७.
 श्रत्-उत्तर- -रे वृदे ८, ५७.
 श्रद् ✓ वा पा १, ४, ६१^१, अक्षते
 वाधुधो ३, १ ६, ३६ : २, ४,
 ७, ७४ : २५, अद् 'घते वाधुधो
 ७, ७४ : २३, अदघते शोभो १२
 ६-१७, अद् दधामि आधो
 ६, ४, १०, जुम् ३, १० : १०, अद्
 (दधामि) अण २, १०, १४७^१,
 साम १, ३७^१, अदधामि
 शण्ड ७, ६, ६, अद् (दधातव)

शोभो १०, ५, ४^१, अद्
 दधोत वाधुधो ३, ३६ : ५, ७,
 ७४ : २७, अद्धीरम् आधो १२,
 १४, १४, शोभो १२, ६ : १४,
 द्विधो २३, ३, १२.
 अद्विधीय^० आधो ६, १४, ६
 अद्-दधन्- -मम् शोष २, ३,
 १८, -घते अण ७, ४, ११, १७,
 २, १७.
 अद्-दधान- -न सु ३१, ३,
 आण्ड १, १, ४, अण ४३, ६, ५,
 वाष, -नस्य शोभो २९, ८ : १९,
 वाष १७, १७, शोष १, ५, ६३,
 -नेम शोभो २९ ८ १६, वाधुधो
 ३, १७ : २१, अण ६७, १०, ८,
 अद् धा- -वा ३, ३, १०४, पाण
 १, १, ३४, ४, ५७^०, ७४, ५, २,
 ३६, पाषाण ५१, ११०, -घया
 काशोत ६ : १४, शोभो २९, ८ :
 १४^१, १५, वैश, -घा शोभो २,
 ३, १६, २३, आधो, अण २,
 १०, १५१^०, वृदे १, ११२^०, २,
 ७४^०, ८४^०, -घामि वैशि ८८^१,
 -घाम् शोभो ७, ४, ४, १०,
 ६, ५, शोभो २, १ ४^१, ६
 ३, माशो, शण्ड ११६ ३०^१,
 -घावा काशोत ६ १५, काण्ड
 ७१ ११^१, शोभो ५६, १, ५७,
 १^१, अण ६, १३३^१, -शोभाम्
 माण्ड २, ६ ३, आण्ड १, १२,
 ५, शोष २, ७, ११, द्विध १, ४, ५,
 -घामि आधो १२, १६, १७^१,
 काशोत ६ १४^१, शोभो १७,

a) स्वार्थे वा मादे वा प्र । b) पामे वृ २४३८ इ द । c) सप्त ऐजा ७, १८ सौन्ध्य इति पामे ।
 d) श्रेष्ठे इति षाठ ? मनि शोष (तु वाण्ड वाण्ड) । e) वस पू = श्रेष्ठ- । f) अक्ष इति ० शोष ।
 g) पामे वृ २२८९ इ द । h) तु BPO. । वृ २४४१ इ द । i) पावा ७, ४, ३ पराण्डः द । j) वैप १ इ ।
 k) वृ ८० इ अणि द । l) मलो वस । m) तु पाणम् । n) (पा ७, ४, ४५) । o) तु पावा ।
 p) = कविता विरेप । q) = देवता- । r) अण । s) आ^० इति षाठ ? मनि शोष (तु शी ६, १३३, ४) ।

४२ : ३१; आप्तः - १००
 आशी ६, ३, ८; वीथी २, १ :
 ६; द्विथी ६, ६, ६.

आह- पा ५, २, १०१;
 पावा ५, १, ११०; -हम् वीथी
 २, २०:१९; २८, ८; १०; आह;
 आश २, १०, १५१^b; श्रे ८, ५८^b;
 आशयो ४, १०; १४, २; -हस्य
 काश ६७, १, ६९, १; वैश २,
 ३: १४^a x x; आपव २, १७,
 २०, वीथ २, ८, ४; -आनि
 वैश ५, ८: ११; वीत् ८९, १८;
 -है आश ४, ७, १; वीश ३, ९,
 १२; आशिय ३, १२, १: १०;
 वीश; पा ४, ३, १२; -हैन आपव
 २, १८, १९; द्वि २, ५, ७२;
 ८७; -हैषु मत्र १, ४, २; शंथ
 २३२; विथ १००, ३; -है: वैथ
 १, ४, ४.

आह-कर्म- तु: विथ
 २०, ३६.

आह-कर्मन्- मं
 वीश ५, ७, १; वीथ १, ५, १११;
 वीथ १०, ५३, -मंनि वथ १,
 ४, १; विथ ७८, ५०, ८२, ३०;
 पाथ २७२: ६; -मंसु कथ १,
 ४, ११.

आह-कर्मन्- ज्ञेन
 माश १, ५, ७, आशय २, १९, १६.

आह-नाक- आह
 विथ ७६, २, ७७, ७, -है वीथ
 २२०, चम्पू ४: ३१.

आह-कर्मन्- > अ-
 ल्पक-शुक्त-परुपित-शुक्त-गीत-
 फी-अनु-मांतात् स-अ)अमो(न-

उ)विद्य-माहिर्दिना(ता-अ)रुलो-
 ल-परिवर्तन- नम् विथ २८,
 ११.

आह-गोह- -हम्
 आशिय ३, १२, १: १४.

आह-देश- -दाग्
 विथ ७३, २५.

आह-निषिद्ध- -हम्
 शंथ २३३.

आह-परिह- -ह्म
 शंथ २२६.

आह-भोजन- जे
 वीश ३, ९, ५; शंथ ४, ७, ५; वत्र
 ३, ५, ४; आपव १, ११, २६;
 विथ ५३, ४३; वैथ.

आह-मन्त्र- -न्त्रान्
 वीश २, ११, ५९.

आह-रत्न शंथ ४, ७,
 १२; वीत् ६, ८, १६.

आह-विधि- -धि:
 वत्र १, ४, ११; अथ ४४, ४, १४;
 -धिम् अप ४४, १, १.

आह-विवाद- -दे
 वीथी ५४: १७.

आह-शब्द- -हम्
 आपव २, १६, १; द्वि २, ५, १.

आह-शब्दा(या-आ)
 सत्र(न-आ)दि- -दिषु शंथ
 २३७.

आह-शेष- -पम्
 आशिय ३, ३, १: १.

आह-श्रीदश- -शम्
 कथ २, ७, ५; ३, ५, ८, १४.

आह-सूक्त- -कम्
 विथ ४८, २१; वीथ ३, ६, १०.

आह-सूक्त-भोजन-
 न- -नेषु वाथ २३, १२.

आह-सूक्त-मैथुन-
 मथु-मांन- -सानि वीश २, ५,
 ५२.

आह-सूक्त-गणा(न-
 अ)ह- -आनि शंथ २३०.

आह-वपसन- -नम्
 द्वि २, ५, ४८^c.

आह(ह-आ)दि-
 विद्युत्कार्य- -है: आ २३, १२, ३.

आह(ह-आ)दि-
 शक्तिपा-मान्- -भाज. वत्र
 ३, ५, १६.

आह(ह-अ)भिमर्श-
 न- -नम् आशिय ३, २, २: १९;
 ६: १२; ७: ११; ११, ३: १७,
 द्वि २, १४, ७.

आह(ह-अ)जन- -ने
 पाश २, ११, २.

आहिक- पा ५, २,
 ८५; -हम् वीश ३, ९, ५०;
 शंथ ४, ७, ५५; वीत् १७३,
 १२; वाथ १३, १९; -हस्य
 वाथ १३, १५.

आहिक- पा ५, २,
 ८५; -हिनान् वीथ १६, ४८;
 -ह्नी वीथ १५, २२.

आह(ह-ई)म्-
 -म्सु: विथ ७३, १.

अह(ह) पा १, ४, ७४.
 अह-तप- पा २, ४,
 १४.

अह(ह-आ)दि- -दि शंथ
 १६१.

a) = विद्युत्-कर्मन्- । b) = [अह(ह-अ)दि-] सूक्त- । c) सपा. आहस्य दर्शनम् <> आहस्यसौमन् इति
 पाठे. । d) = आह(ह-अ) । e) वत्र. उप. स्वार्थे ङ प्र. (दु. गोश्वम् [दु. संसृग्- डि.] । f) दु. द्वि २, ११, ४ । g) अह(ह-अ) दिवि वाडः इति. शोच- (तु द्वि.) ।

अद्वा-देव- -अम् वापथी
 २२,१८,१५, वीथी १६,०८ ५
 अद्वा (दा-प्र) वित- -ा
 वीथी १, ४: १, वर ४, २,
 १५
 अद्वा-त- तम् वीथ १,५,
 ६३
 अद्वा-प्रतिपान- ले वा १,
 ४,६६.
 अद्वा प्रेरित- -ती वर ११,
 १,०, १३, १,२
 अद्वा मनस्- -ना वीथी
 २७,१४ ८.
 अद्वा मेधा- वाग २, ४,१४,
 -वे वीथ १२,४,१४,१५, ३,८,
 २, वाग २,०,१०^१, ४, १,३,
 वीथ २, ५, ५४^१, वर
 अद्वा-बुक्त- -नस्त्व वीथी २,
 १२: १०
 अद्वा-वत्- -वात् वीथी १२,
 १,१
 अद्वा नील- -ल वाप ८,९
 अद्वा हीन- -नम् वर २, ६,
 ३
 अद्दित- -म्, २, ३६
 अद्दो (दा-उ) पव- -म्
 वीथी २४, २ ४^१
 अद्दो (दा-उ) पव- -ले
 पावा ३ १,६१
 अद्-धान- -नात् वा ९, ३०

अद्वा-उ- वा ३, २, १५८.
 अद्-वे^० मासि ३४^१.
 अद्-स्त्वा मासि १४, १
 ✓अद्-^१, न्-^० अद्-मासि माथी १७,
 १५, ७, १८, २१, २, अद्-भाप
 अद्-मा २, ५०, ९, ५०
 अद्- (न >) ना- वा ३, ३,
 १०७
 अद्- -अम् वीथी ६
 अद्वा- था द
 अद्-पण- प्रस्त् अ (पाके) द
 ✓अद्- वापा उरत. पर गती
 अद्- पाग १, १, ३७
 ✓अद्- वापा रिवा पर तपस्विदेव,
 अन्व वीसि २६६^१, अन्व
 वासि २, ७, ६ ४, ५
 अद्-मासि वापथी ४, २६ १९,
 अद्-मासि वीथी २६, ९, २४,
 अद्-मास्य वीथी २४, ३१ ३,
 हिमि २१ ५, अद्-मास्य वापथी
 ४, २६ १८
 अद्-मासि वीथी १२, ३, २२^१
 अद्- -^१ वीथी २, ५ १०,
 २३, -अम् वापथी ४, ५५
 १, ६, वाप ३ २, वर २८, ३६,
 -मात् वर ३७, ८, २^१, वाप
 २७३ अम् १०, १०^१, -मेग
 वीथी १५, १९, १^१, वापथी
 अद्-मीदित- व मासि १२,
 ७

अद्-मासि- वाग २, १, ५९^१, ७०, ५
 १, १२४, १३०^१, -म वीथी
 १६, ३० १, -अम् वीथी १५,
 १९, १^१, वासि २ ७, १० ६.
 अद्-मास- वा ५, १, १३०
 अद्-मास- -अम् वैष १, ६, ४^१,
 २, १, १^१, ५, ९^१, -काय वैष
 १, ६ ४^१, -केन वाप ९, १०,
 वीथ २ ६, १७, वीथ ३ २७
 अद्-मास-वत्- -अम् वैष
 १, ६, ४, -वाप वैष १, ६, ४^१,
 अद्-मास- (क प्र) नि- नि
 वैष १, ७, ५ २, ५, ७, -निम्
 वैष १, ६, २, ५, ४, -तो वैष
 १ ८ १४, वैष १, ६, ५, -तो
 वैष २, ७, ३
 अद्-मास-वत्-वत्- -निम्
 -अम् वैष १, ७, ३
 अद्-मास-कान्-वा (मि वा)
 वाप- -अम् वैष २, १, ८
 अद्-मास-की- -> व-
 विधान- वेन वैष १, ६, ३
 अद्-मास- वा ५, १, १२४^१
 अद्-मा- -वा-त् व १, ५, ४, वीथ ३,
 २, १३ वदे ३ १४२, -निम्
 वीथी ४ ७, १७, वापथी ४, ९,
 ६०, माथी ४ १३, १०, हिमि ६
 ३, १०, -निम् वीथी १०, ३,
 ४, वाथी ३, ११, ३
 अद्-मास- -अम् वीथ ६३ २०^१

a) वैष १ द । b) विप (वत्) । पव रूप = उपस्था- । c) वृ पति । d) वापा अा पर
 हिंसायाम् । गुण ३, ११२ पराम् ६ । वृत्ता पर प्रयत्न, वन्धने [तु BPG] प्रत्यय [तु भाष्य] प्रतिपत्त,
 प्रतिहर्षे [तु BPG], उभ सदर्थे मोक्षणे, दिवायाम् [तु BPG] दीर्घत्वे । e) अा अात्म विधित्ते । शीच ४, १३
 पावा १, २, ६, ३ १, ८९ पराम् ६ । कथा पर सदर्थे, विनोचनप्रतिहर्षयो । f) = साय विधेय । g) = प्रवर्तित,
 [उपनगरात्] अामि [वासि] । कारि लुपु प्र (वृ शक) । h) वृ वापा पति पात्रम् । i) अद्-मास- इति
 पावा [पसे] पति, अद्-मास- दति [पव] BPG । j) भाप (तु सभा देवा ७, १५ अद्-मास- इति पात्रे) ।
 k) विप, वाप । तसेपदमीय लुप् प्र (वा ४ ३ १२६) । l) अद्-मा इति पाठ १ वनि सोव (तु मू, BA च) ।
 m) अद्-मास-विधानम् इति मू, BA च । n) वृ पात्रम् । o) पात्रे वैष १ आत् २, ४, ११ टि द ।

श्रम- √धम् इ
 श्रम- म चाए ३, १०, २^३
 श्रमण, पा- √धम् इ
 √धम् पाषा. भ्या आत्म प्रमोद
 श्रवण- √श्रि (सेवायाम्) इ
 श्रवण- √श्रि (पाके) इ
 श्रयति- प्रम् √श्रि (सेवायाम्) इ
 श्रवण- √श्र (धवणे) इ
 श्रवण, पा^३- पाठ २, ७८, पा ४,
 २, ५^३, -ण अण १, १, २, २,
 १×४, कण्ड ७, ३५, वेज्यो ३६,
 -णम् शण्ड ४, १५, १^३, आश्रिण्ड
 २, ७, ६-११, अण १ ८, ३,
 अशा ५, १, विघ ९०, २०,
 -णस्य अशा ६, ५, -णम् गोरु
 ३, ३, १२^३, -णाय चाए १,
 २६, २१, ४, १५, २, पाठ,
 -णाया आश्री ८, १४,
 २१^३, -णायाम् शशी ३ १४,
 २^३, आश्री, -णे आश्री ५ ३,
 १४, कैण्ड १, ११-१५, अण,
 -णेन चाए ३, ५, २, कौण्ड १,
 १२, ८, ३, ५, ४, ४, २, १, चाए
 श्रवण- पा ४, २, २३, -णम्
 कैण्ड २ १२ २६, -णस्य कौश्री
 २६ १९ ६, अण्ड ३, ५, २,
 पाण्ड २, १०, २, सञ्च ३, ८, -णे
 कौश्री २६, १० १०, कैण्ड २,
 १२ २३, ६, ११ ६^३, अण
 ७०^३, ६, २, ७३, ७, ४, -णेन
 गोरु ३, १, २, चाए ३, ३, १६
 श्रमण प्रोष्टपद- द्वयो अण

५५, १, ५
 श्रमण होम- मन् वैण्ड ६,
 ११. ५.
 श्रमण(ए-या)दि- दि
 कण १, १०, ५
 श्रमणिक- पा ४, २, २३
 श्रवण(ण>)गी^३- गी गौघ
 ८, १६, -गीम् द्राण्ड ३, २, १५,
 -ण्याम् माश्री ८, ७, ४, वैश्री,
 कौण्ड ४, २, १^३, -णै कौण्ड ४,
 २, ११, चाए ४, १५, २१, पाण्ड
 २, १४, ६, अण्ड १८^३, १६, १
 श्रवणया(शी-या)प्रहायणी-
 -ण्यो. वाच ११, ४३
 श्रवण उर्मन्- -र्म भाण्ड २, १ १
 श्रवण धनिष्ठ- -ण्यो कौण्ड १,
 २०, ३.
 श्रवण सु(क>)का- क्वाण्ड
 विध ९०, १३
 श्रवण वत् पाण्ड ३, २, २
 श्रवण-सु(त>)ता- ता विघ
 ४२ १०
 श्रवण-उर्मन्- -र्म चाण्ड २, १, १,
 पाण्ड २, १४, १, दिण्ड २, १६,
 १, गोरु ३, ७, १, कण्ड ३, १,
 १२, -र्मणि कण्ड ३, १, ६
 श्रवण(ला-आ)प्रहायणी-कर्मन्-
 -र्मणो गोरु ४, ८, १
 श्रवण(ण आ)दि- दि गौघ १६, १
 श्रवण पक्ष- -क्षस्य आश्रिण्ड १, २,
 १ १^३, -क्षे^३ भाण्ड ३, ८ १,
 दिण्ड २, १८, २

श्रवण- पाण्ड २, १, ५९, ५, १,
 १३०^३.
 श्रवण- पा ५ १, १३०, -ण
 कौण्ड ९२, ९^३
 श्रवण^३->श्रवण कृट-क्वाण्ड^३- ग
 काश्री २३, ४, १६.
 श्रवस्- प्रम् √श्र(धवणे) इ
 √श्रा √श्र (पाके) इ
 श्राणम- यणम- इ
 श्राण- १ श्रात- श्र(पाके) इ
 श्रात- √श्रि(पाके) इ
 श्राद्ध- प्रम् श्र इ
 श्रान्त- √धम् इ
 √धाम् पाषा सुरा पर श्रामन्त्रणे
 श्राणण-, णक- प्रम् √धम् इ
 श्राय- √श्रि (सेवायाम्) इ
 श्रायत्-, श्रायन्ती- √श्रै इ
 श्रायस- श- इ
 श्रायक-, श्रायण-, श्रायणीय- प्रम्
 √श्र (धवणे) इ
 श्रायस्ती- (< ष्त्व- पा) पाण्ड
 ४, २, १७
 श्रायिष्ठायन्-, श्रौय- √श्र (धवणे)
 इ
 √श्रि (यथा)^३ पाषा भ्या उभ
 सेवायाम्, श्रवणायाम् आश्री
 ४, ८, २^३, ३, माश्री, श्रवणाय
 कौश्री ३, ८. २५×४, माश्री,
 अयस्य श्रवणश्री ६, ३, ८, १४,
 ३१, २^३, ५^३, १८, ३३, ३, कौश्री,
 सु १४, ४, श्रवणायाम् कौश्री
 १०, २० ११×४, दिण्डी,

a) सपा मे ४, २, १ सुम. इति पाठे । b) कैण्ड १ इ । c) = [मन्त्रयुक्त-] राशि- इति
 पाठा प्रम् । d) = श्रवण-कर्मन् । e) = पीथमाश्री- । f) = श्रावणमात- । g) = श्रावण होम- (ह ०) ।
 h) = गौणमाश्री, कर्म विस्व । i) पाठे इ २४२५ इ इ । j) एव छान्दसो इत्य । k) वररस्य पाठे ।
 l) = धमण- । m) वृ २४४१ इ । n) तस्येदमीय. कण्ड प्र । o) = व्यापि विसेव- (शोण-) । p) इत्य >
 मञ्जो कण । q) इ DPG । r) या २, ७, ४, १३ पा ३, १, ४८, ७, २, ४९ पराण्ड इ । s) पाठे कैण्ड २,
 १५ अयस्य सेवा ३, ७, १०, १^३ इ ।

अध्वयन्त वाधूथी छ, १५: २,
अध्वेत् वीध छ, १, १६
अतिश्रेय तेज ११, १७०,
अतिश्रेयु लाधौ छ, १२, ४१,
पुत्रशिश्रेम आपथी छ, ६, १,
माधौ.

कधेत् आधौ ८, १०, ११
दिश्रिवाण, गा- ग अधौ छे,
३१ ६, १४, १४ ३, -नाम्
वीधौ १०, ४८ २८, माधौ ६,
२, ४, ८

१धय- > १धयण(ण-अर्थ >)
वां- थां निम् १, ११ १६
श्रवति- > ति कर्मन्- नां या
७, २९

श्रव(त् >)न्ती- न्ती आनिष्ट
३, ११, २ ११

पुश्रयमाण- ण आधौ छे, १, ९,
वाधौ ५, १५ ३

श्राय- पा ३ ३, २४

श्रित, ता- त आधौ ५ १९,
३१, आपथी छ, ०, ०, माधौ,
-तम् आपथी २, ५ १, वीधौ,
वाधौ १, ३, २, १८, वा ३,
५, -ता आपथी ८, ४, २, १,
वीधौ ५, ४ २०, दिधौ, श्रदे
१, ११, -ता दिधौ १२, ६,
६, जेधौका ६२, निम् ३,
९ ३२, माय २, ७, ४, दिध
१, १३, १९, १, १, १०८,
-तादि वीध २, ३, ६, १, -ता
दी १३५, १, -ते वाधूथी
४, ४४ ४, आनिष्ट २, ३, ३

२३ २, अप्राय ५, ३, -तेभ्य
माय ३, १४ २३
धित-व(त् >)ती- डी निम्
६, १०: ३५

श्रिता(त-प्र)तीत-पतिता गता-
(त-प्र)रूपरुत-प्राता(त-आ)
पन्त- न्ते पा २, ९, २४
श्रिता(त-अ)तिण मानव
पचत्- न्तेषु हुप्रा ६, ७
श्रिता(त-आ)दि- दिनि,
-दिपु पावा २, १, २४

श्रिति- तिम् वीधौ ११, १० ४,
११ १०, -ती वाधूथी ३,
७६ ६, ८१ २, -ती वीधौ
२२, १५ ३

पुश्रिवसे वीधौ १३, २०: १, माधौ
५, १, ६, ४०

श्री- वाठ २ ७७, पाग ५, २, ९७,
पावा ३, २, १०८, श्रिय शाधौ
१४, २५ ४, आपथी, दिधौ
१५ ८, ३५, श्रियम् आधौ
छ ७, ४, ४, शाधौ ५,
१, १०, ४, १६, २९, ७, ३०,
१२, आपथी छ, २, १, ४, २२,
१३, ४, २३, ४, ११, ६, ९,
माधौ, वीध १२ ७, २५ ११६
१८, श्रिया शाधौ १६ २९,
७, आपथी २२, १०, ६,
वीधौ, श्रिया द्राय छ, ४,
१०, श्रियाम् आपथी १४,
२३, २१, जेधौय ११,
अप्राय ६ १, श्रिवे आधौ छ,
१४, २, १, वीधौ ३, ५, ११, १

आपथी, आपम २, ११, ३९,
श्रिये पुंआधौ २, २, २, ९, ९,
शाधौ, वीधौ १३, १४ ८,
जेधौ २, १०, आपम १, ३,
१४, पाय २, ६, ११, वीध
१, ३, ३७, आनिष्ट २, ६, ६
२५, श्रो: आधौ ५ १,
१०, १४, २५, ४, १५, १६,
१, आपथी १, १०, १२, ४, ४,
२३, ७, ५, वीधौ, दिधौ १८,
३, २ पाय २, १७, ९, ३, ४,
१०, १८, आनिष्ट १, ३, ४,
१४, २, ६, ७, ९ हुम छ,
११, ४, श्री उधौ वाय २४,
१३, श्रीकाम् आपम २, ११,
२०, पा ७, १, ५६
श्री-नाम- म आधौ १०, ३,
२७, ५, ७, श्राय, -मय वैय
२, ३ २, -मस्य काधौ छ, १५,
१४, माधौ ५, १, ९, २७, वीधौ,
-मा दिधौ १८ ३, ६
श्री कृष्- -व्यु शय छ ४४
श्री सेतो धना(न आ)दुप-
काम- मस्य अता १७, १
श्री-वैव- -व्यु वैय १० ३
पुंश्री धर- -रम् आनिष्ट २, ५,
७ १०, वीध १, ११, ७, वैय
श्री निवास(त-अ)प- -यम्
वीधौना छ
पुंश्री-पति- -न्ते वैय छ, ८ ९,
-तिम् वैय छ, ८ १०
श्री पण-मि(ध)आ- -आ
व्य ३०, १, १७

a) = गीतिविचारतया निर्देश । b) वस । c) पाने वेप २३ लं सुवि तेजा ३, ५, १९ दि द ।
d) पाने ४ ५५४ इ द । e) = [जितल=दधी-] इ द । f) [मन्वन्वाणम्] इ द । g) नाप (निरोपि) ।
h) वैप १ द । i) पाठ : श्रियाम् इति शेष (तु सया आपथी १४, ३२, २) । j) पाने ४ १५१ इ द ।
k) तु ०।०, वैतु मायम् उतरेण समस्तमिते । l) सया दिध १, ११, १ एधौ इति पाने । m) = देवता ।
n) व्य । वत > रुम । o) = विष्णु । p) = शोपधि विशेष ।

श्री पर्येत- ने विप ८५ ३४
श्री पुत्र- प्राणाम् वृदे ५, ११
श्री फल- ने विप २३, २१,
वैष ३, ४, ३

श्री मण्ड- गा तैषा ७, ११^१
श्री मत्- पा ५ ३, ११८,
-मत् अथ ५८^२, १, २, -मत्
तु ५, २, -मत् अथ ६८, १,
२८, -मत् वीथी १, ६, २२,
-मत् वीथी २७, १४ ३^१,
माथी १०, २ २^१, हिथी
श्रीमती- तयो वीथी
२८, ३ १४

श्रीमत- > भाव- पा ५,
३ ११८

श्री-मनस्- ना शुभ ३
११^१

श्री दशस्-काम- मस्य काथी
४, १५, १०

श्री-यसो(सम्-अ)धिद- धी
शव २४४

श्री-नाट् मित्र(त-आ)सुप्-
काम- मस्य वाथी ५, १०, १

श्री-नाट्(द् भा)तोम्य-
पथव- नम् अथ २३, ५

श्री-व(स>)सा- तसा अप
७०^१, ३, ३

श्री-व्या(त प्र)द- दम्
वैष ४ ११ ३ विप ९७
१०

श्री विरध(व>)जी- नीम्
का २२

श्री युद्ध-> ध्व स्वस्तिक(का-
भा)वर्त हस द्विरद-वचंस-
-वस अथ ५८^२, ३, ७

श्री वेष्टक-> क-सर्जरस
तगरो(र-उ)शीर पत्रक- कै
अथ १, ४३, ४

श्री(धी-ई)त- शाय शैथि १
श्री सरस्वती-रु (२>)पा-
पा अथ ४१, ६, ५

श्री सूक्त- नम् वृदे ५, ११

श्री-स्तोम- म्ना जुसु २, १
१२ निम् २, १ ३५

श्रेणिणी- पाठ ४, ५१, पाग २,
१, ५९, -णि या ४ १३^१

श्रेणि शस् () या ४, १३^१

श्रेणी-प्रकृति-सुत्थ- -रयानाम्
अथ ५, ५, १

श्रेण्या(णि-आ)दि- दिवु पावा
२, १, ५९

√ध्रि, धी (वधा) पावा वधा
उभ पके, धीगाति काथी ९,
६, १५, आपथी, धीगन्ति
थाथी ४, ६, ३^१, काथी ५, ९,
१^१, वीथी ३ ६ ५^१,
काथी, षुश्रीगामि आपथी १३,
९, ८, २२, २६, २, वीथी,
षुश्रीगत वीथी ४, ९ १०,
माथी ७, २०, १, षुश्रीगीतम्
आपथी १३, १, ३^१, वीथी ८
३ ६ ८^२, ९, वैथी, धीगादि
आपथी १२, १९, ५^१, धीणीदि
आपथी १७, २२, २, हिथी १२,
६, २६, धीणीतम् आपथी १२

१९, ५^१, षुश्रीगीत आपथी
१२, १९, ५, या २, ५, धीणीवत्
काथी १३ ६, ३, आपथी १४,
२४, १४, वीथी

२धयण- -ज षुश्रीगीत २२, २६,
४ -गम् काथी २२, ९, ९,
वीथी १४, २९ ३५ माथी ५,
१, १, ६०^२, -गानि आपथी १२,
१, १०^१, ७, ७, ४, वैथी ११, २
१३, हिथी, -णे वीथी २१, २२,
२४, २३ १६, -णुत् काथी ९,
६, १०

धयण वत् मीत् ६, ४, ४४

२धयणा(ण अ)ध- -धं वीथी
२५, १३ : ८

२ध्यात-, २ध्रित- पा ६, १, ३६

श्रीगन्- गन् शस् २, १, ६८^१

श्रीत- नम् वाथीस २५ ५ ६

श्रीळा आपथी १२, १४, १२, ५, ५,
माथी

२ध्रित-, ध्रिवसे √ध्रि (सेवायाम्) द
√ध्रिम्, धीण्येयु वैथी १६, ११
८^१

धू-, ध्रुति- पा ६ ४, २०, पावा
३ ३ १०८^०

√ध्रिप् पावा भ्रा पर दाहे

√ध्री √ध्रि (पाके) द
श्री- √ध्रि (सेवायाम्) द

ध्रीणीहीषु ० काथी १२ १४, ५

√ध्रु √ध्र (भ्रवण) द
ध्रुत् (ध्रुत्, √ध्र पा) पाव १, ४,
६१^०

२ध्रुत- √ध्र (भ्रवण) द

a) = पर्येत विषय । b) = क्विप् पल-। मगो वम । c) वैष १ द । d) स्या वधा <> न्या
इति पामे । e) दृ पागम । f) = क्विष्णु । g) श्तिवकारात् इति पाठ १ यनि सोष (दृ सूची) ।
h) = मरुत्तम् निधात । पग (तु शक) । i) = एकाद विशेष । यत । j) = स्या रि ३ २२, २ । की ४,
१, २ ५ २, १ द धीण्येयु इति पामे । k) भाववरणयो वृत् । l) = मद्र । m) ध्रप इति पाठ १ यनि
सोष (दृ ०) । n) ध्र. आपथी १३, १, ११ धीण्येयु इति पामे । o) सोवार्थ वैष १ द्वा २०, १२७, ६ टि द ।

२श्रुत-> २श्रौत- -व आधी १२, १, १८
 श्रौति^१- पाठ ४, २, १२८, -विभि.
 वीथीप्र ४८ ११.
 श्रौतायन- -वा वीथीप्र २३ २
 श्रौतीय- पा ४, २, १२८
 श्रुत ऋषि- प्रभु \checkmark श्रु(भवणे) द
 १श्रुतवर्ज- -वर्ण ऋम २, ८, ७४,
 इवे ६ ६५
 श्रुतर्षि- प्रभु, श्रुति-, श्रुतिद- \checkmark श्रु
 (प्रसंगे) द
 \checkmark श्रुधीय^२> १श्रुधीयत्- -वत्
 ऋम ९, १४, १४, ५५
 श्रुधीहवीय^३- वस्य आधी ७, ११, २८
 श्रुध्य^४- -वत् लाधी ७, ३, ३, छस
 १, १ १२x५ निम् ६ ३
 ११x५, -वत्स लाधी ७ ३५,
 -व्येन निम् ८, १० २४
 श्रुष्य वारवन्तीव- -ये निम् ८,
 ६ ४१
 श्रुमत्^५- पा ५ ३, ११८
 श्रौमत्-> श्रौमत्-कामकायन-
 वा वीथीप्र ३३ ३, द्विथी २१,
 ३, १९, -नानाम् काधी १२,
 १४, ३, आपधी २४ ६, ३
 श्रौमत्य- पा ५, ३, ११८
 श्रुत्^६-[>श्रौ-य->श्रौव्यापण>]
 जो-) पा] पाठ ४ १, १०५, १८
 १श्रुष्टि^७- छि ऋम २ ७, ४०, -द्विम्
 ऋम ८, २३, -ही^८ आधी २,
 १०, १६, ७ ९, २, वीथी
 श्रुही-य(न>[>]री^९- -री या
 ६, २२१६

२श्रुष्टि^{१०}-> श्रुष्टि-यु^{११}- -नु ऋम
 २, ८, ५१, ऋम २०, ११९^{१२}
 श्रू-श्रूति- \checkmark श्रि^{१३} द
 श्रयमाण- \checkmark श्र (भवणे) द
 श्रेणि- प्रभु \checkmark त्रि (सेवानाम्) द
 श्रेमन्-, श्रेयस्- *श्र- द
 \checkmark श्रै पाथा भा पर पाके, १श्राय^{१४}
 आपधी १५ ३, ७, वीथी ९,
 ३ २०, माधी ११, ३, २, वीथी
 १२, ४ ३, द्विथी २४, १, १७
 \checkmark श्रे(= \checkmark श्रि [सेवानाम्])> १श्रा-
 यत्- -वत् आधी ७, ४, ३,
 शधी ११, १२, २१, १२, ४, १९,
 १६, २१, २९, वीथी, या ६ ६६
 श्रायन्तीव^{१५}- -यम् आधी ६ ८,
 १२, १३, काधी, -वस्य निम्
 ६ १० ३५ -वाय् छुम् १,
 ८ २८, ८ ११, ११ २३
 श्रायन्तीव वियोग- गाद् निम्
 ६, ८ २१
 श्रायन्तीव वदसामन्- -न्तो
 लाधी ६ १२, १३
 श्रायन्तीव नदसामन् द्वैराग
 (त-व)अस्- -असाम् लाधी
 ६, १२, ७
 श्रायन्तीव(व अ)उपुपुक्-
 -रु छुम् १ ९. ११
 श्रेष्ठ्य- श्रै- द
 \checkmark श्रीष्^{१६} पाथा भा पर सधते
 श्रो(ण>]णा^{१७}- पाठ ३, ६, -वा
 माधी १०, १८, १९, १७, १२,
 द्विथी ३ २, ४, वीथ १, १ २३,
 -जाथा वीथ ३ ८, ३९,

-जावाम् द्विथी ३, ३, १८,
 वीथ १, ११, २, -जाथै वीथी
 २८, ४ १२, वीथ ३, २०. ९
 श्रोमा सद्वान- -नेन वीथी २५,
 ५ ८
 श्रेणिणी^{१८}- पाठ ४, ५१, -णि
 आधी १२, ९, ५, काधी ६, ७,
 ६, ७, आपधी, -निग्याम्
 माधी १, २, ४, १९, -निम् काधी
 ६, १ १, आपधी ७ ५, ५, वीथी,
 -यो आधी ३, ३, ११, वीथी
 ५, १७, ५१, काधी, आपधु
 ४ ६, ५, १, ३-५ ९ ७,
 वीथु -नीयाम् आपम १,
 १७, ४१, द्विथि ९ ९, तैपा ३,
 ७१, -नीय^{१९}काधी १, ७, ४, ४८,
 वीथ २ ३ ८१, आपधु १२ ३,
 -यो आपधी २, ८, ३x५, वीथी,
 आपधु ४, ७, द्विथु २, ६, -नी
 माधी १ ७, ३, ३१^{२०}x५, -व्या
 काधी १ ६, ७, १x५, -व्याम्
 काधी ५, ४, १२, आपधी,
 वाधु १, २९, आपधु ५, १, वीथु
 ३ ४, ८ ३, २३, द्विथु २, १८,
 -व्यो आपधी १५, १५, १,
 वीथी २४, २७ ४, माधी,
 वीथि १, ६ ६, वीथु १०:
 १३, द्विथु ४, ४१, छम ४,
 २०७, -व्यी वीथी १४, ४ ३
 श्रेणि ऋत् () या ४, ३, -त ऽत
 माधी ५, २ ९, ५
 श्रेणि-नेस- -वाय् वीथी ४, १२, १,
 श्रेणि वर्ज्य काधी ६ ८, १२

a) श्रु पाठे च ११ २, ३५ द । b) आपधौ इम प्र (तु पाठम्) । c) वीथ १ द । d) <श्रुधी
 टप्य (क २ ११, १) । e) = ताम विभेय । <श्रुधीय- (<श्रुधी [दु मय]) । f) व्यप ।
 ह) श्रुष्टि इति पाठ २ यदि शोध (तु सात ऋम च) । h) पाठे नेव १, ७२५ द । i) वय । j) या
 ४ ३ पाठम् द । k) = २, ४ अशेष । l) ताम ऋ १०, १३३, ४ शिवा इति पाठे । m) = ताम ते ७,
 ३, १६, २ । वाठ ४३, ६ तु शिवा इति पाठे । n) पाठे पृ १६८५ ८ द ।
 १९४-४ ४२

श्रीणि स्कन्ध सप्त-पाठ- शम्
 वर ३ १०, ४
 श्रीण्य(णि श)न्त- न्ते वीथी २,
 १७ ३८, १०, २३ १९x, ५
 वैथी १९, ६ ५
 श्रीण्य (णि श)स- सयो काथी
 १७, २, १५ १७, वासु १, ७,
 आपसु ४, ७, दिशु २, ६, -साद्
 आपसु ६, ७, १०-१२x,
 वीथु, -से दिशु ४, ८, -सोय
 आपसु १८, २, दिशु ६ ७, -सपु
 काथी ५, ४, १२, वाथी १, ६,
 १, ३, २, वैथी, -सी आपसु १,
 १२, २, २, दिशु १, २२; २३
 श्रीण्य(णि श)स-निरन्त सप्तपा-
 समासभद्र- श्रेणु वासु १, ५
 श्रोत-य- १श्रोत्रिय- प्रभु ✓श
 (श्रवणे) द
 शश्रोत्रिय- न्वा वीथीप्र ९ २
 श्रोमत- श्रोव्यन्त- १श्रोत- ✓श
 (श्रवणे) द
 शश्रोत- श्रुत- द
 श्रोतवक्ष- प्रभु ✓श(श्रवणे) द
 श्रोतायन- श्रोति- श्रोतीय- श्रुत द
 श्रोमत- श्य- श्रुत- द
 श्रोत्र्य- श्याण्णी- श्रुत- द
 श्रोत्र्य- श्वाथी ८, १, १०, १, ५वाथी
 ३, २, ४, ६, १५, वाथी, वीथी
 ८, १३ २३, १वाथी १, ३, १, २५,
 ४, २४, २, ३, ७, १३, वा ८,
 १, ११, वाग १, ४, ५७, ११,
 श्रीवपद् काथी १, ४, १३, १
 श्रोपट ✓श वा १, ४, ११
 श्रुत- (> साक्षिक- वा) पाग

४, २, ६०,
 श्रुतवर्ण, श्या^{१०}- पाठ ३, १९, पाग ४,
 २, ६०, ३, ७३^{०१}, ५, १, ५०,
 -श्या अत्र २१, २, ५, -क्षणम्
 ५वाथी १२, २२, १, ६, वीथी ७,
 ६ : ४६x, नाशि १, ३, १६,
 ७, ८, -श्या अत्र २२, ३, १,
 मशु ७, १२, -श्या अत्र २४,
 १, ७, -श्याम् माशि १२, ८,
 -श्याम् काथी ११, ३, २०^{१०},
 माथी १, २, ४, ११, -श्यायाम्
 वाथी १२, २२, १, १, -श्या अत्र
 ३५, १, १५, नाशि २, ८, २१
 श्लाक्षण- पा ४, ३, ७३
 श्लाक्षिक- पा ४, २, ६०, ५, १,
 ५०.
 श्रुत-क- का वीथी १२, २ १७,
 २४, २३ ४
 श्रुक्षिक- नायाम् वाथी १२,
 २२, ११
 श्रुक्षण-भार- > श्लाक्षणभारिक-
 पा ५, १, ५०.
 ✓श्रुक्षिक पा ३, १, २१, श्रुक्षि-
 यति काथी २६, १, २३
 श्रुक्षी ✓श्रु, श्रुक्षीकरोति आपथी
 १, २५, ७, श्रुक्षीवृषेन्ति आपथी
 १५, ३, १५, माथी ११, ३, ९,
 वैथी १३, ४ ८.
 श्रुक्षी करण- न्वा आपथी
 १५, ३, १५, माथी ११, ३, ९,
 वैथी १३, ४ ८
 श्रुक्षी कुर्वन्- नन्व वैथी ४,
 १० ९
 ✓श्रुक्षिक्, श्रुक्षिक् पाथा भ्वा भ्वात्म.

गती
 ✓श्रुक्षिक् पाथा भ्वा पर. हिंसायाम्,
 सुरा पर. दौर्बल्ये
 श्रुक्षिक्->श्रुक्षिक् वन्ध- न्वा शैशि
 ७२, -वा शैशि ६८, ७६
 श्लाक्षिक- श्रुक्षि- द
 श्लाक्षण- प्रभु श्रुक्षि- द
 ✓श्लाक्षि पाथा भ्वा पर व्याप्ती
 ✓श्लाक्षि पाथा भ्वा. भ्वात्म कल्पने.
 श्रुक्षिमान- न आपथ १, ३, ३०,
 वीथ १, २, ४०, हिम १, १, ६३
 श्लाक्षि- वा श्रुदे १, ३६, ५३,
 -वापाम् अत्र ४८, २७
 श्लाक्षि(वा अ):वाक्त्र उद्वेग-
 वेपु वा ५, १, १३४.
 श्रुक्षि- पाठ १, ३२
 ?श्रुक्षिपुश्चिल्लीपते वाथी १२,
 २३, १.
 ✓श्रुक्षि पाथा भ्वा पर. दाहे
 ✓श्रुक्षि पाथा दिवा पर आतित्रये,
 सुरा पर श्लेषयो, श्रुक्षिपते वापथी
 ३, १५ २, श्रुक्षिपति अत्र ४८,
 ५४, श्रुक्षिपते वीथ २, १, १३,
 वीथ ९, ३१
 श्लेषयत् माथी १, ७, ४, ४, हिथी
 ५, २, ३९, श्लेषयत् वीथु ११ ६.
 श्रुक्षि, वा- श्रुक्षि काथी ९, ४, ३५,
 माथी ५, १, ९, ३४, माशि ११,
 ८, -श्रुक्षि. श्रुक्षि २, ४, ९
 ९, -श्रुक्षि १, २५
 श्लेष- वा ३, १, १४१.
 श्लेषन्(कथ) - पाठ ४, १४५, पाग
 ५, २, ९७, १००, -अ आपथी
 ६, १४, ७, वापु ४, १०, २६.

द) व्यप । ढ) वैप १ द । ङ) श्रुक्षि पाठ २ वनि सोप (दू. पूर्व रूपे) । द) = प्रन्ध-
 विरोध । ङ) विप, नाप (पाग, नाशि) । ञ) दू पागम । ट) = मानशुश्रुतिविरोध । क) श्रुक्षाम्
 इति पाठ १ वनि सोप (दू मापम्) । इ) रामधे प्र । ज) दू BPG । क) वल । ल) वा १, ४, ३४
 परापर द. । म) वैप १, ०-२३ ० द । न) वा, वावा ३, १, ४६ परापर द ।

✓दिलिपु >

-प्लव या १४,६, -प्लवि वेष्ट
 ५,१ २१, -प्लवा वाधुषी ३,१५
 १, गोष्ट ३,६,३, या २,५,१४,६
 श्लैमिक- पावा ५, १, ३८,
 -काभि अप ६८,१,२०^२
 श्लेष्म-जतु मधुकिष्ट शङ्ख सुकि
 त्तु सीस-कृष्णलोहो(इ शी)-
 दुम्बर खट्वापत्र-विक्रपित्- श्री
 विष ५४,१९
 श्लेष्मण- पा ५,२,१००
 श्ले म पृषा(य अ)श्रु शोमित-
 नै वाप ३,५९
 श्लेष्म मिश्र- अम् कोत् १९,
 १५
 श्लेष्म ल- पा ५,२,१७
 श्लेष्म-न्याप्य(पि-अ)र्दित-
 -नानाम् विष ९,२९
 श्ले म सधातक^३ - श्री विष ९६,
 १२
 श्लेष्मा(प्ल अ)धु- धु क्त
 ३,३,९, विष २२,६१
 श्ले-मो(प्ल-उ)दक- के अणव
 १,२०,१२, हिप १ ६,२६
 श्लोपद^४->दिन्- दी राध ३७७
 १, ३७८^५, विष ४५,२९
 श्लोप^६- न्याणाम् बीधी १५,१ १२
 श्लेष- प्रथु ✓दिन्पू ३
 श्लेष्मातक^७- पावमो २ २,४३, -क
 बीधी २६, १० २२, -अम्
 वष ३,५ ८
 श्लेष्मातका(क-अ)कं-रष्टकि कटु
 तिका(क-आ)दि-ग्रमित-
 ते अा २१,३,५

श्लेष्मान्तक^८->श्लेष्मान्तका(क-अ)
 क्ष-गुधा(घ-आ)दि-परित्यक्त-
 -के अप १९^९,१,४
 श्लेष्मान्तका(क-अ)रिष्ट विभीतक-
 घव चन्वन-ज- -जम् विष
 ६१,२
 ✓श्लोष् पाधा भ्रा आत्म सघात
 श्लोक्त^{१०}-क. आश्री ६, १२, १११,
 आश्री १३,१८, ११, २३, १४,
 १६, कथीस ६ २९, बीधी,
 अप ४८,१०२^१, निष १ १११,
 ना ९ ९४^१, -कम् भाष्ट १,११
 १५, वाष, -अस्व श्रज ३,११,
 -का निस् ५,१२ १८, बीष्ट,
 -कात् वाप १४ १६, २४, ३०,
 १८, १३, आणप १, २२, ३,
 द्विप १,६,३, -काम्याम् या ३,
 ४, -वाष आश्री ५ १०,१०^१,
 शोश्री ७,९,६^१, -केन पावा ८,
 ४, ६२, -की काश्रीस ६ २,
 वैताश्री ४, २३, ९ १२, निस्,
 आणप १,१९,१३^१
 श्लोक कार- पा ३,२,२३
 श्लोक शृत्- शृत् वैधी ४, ७ २
 द्विधी १,५,५३
 ✓श्लोक पा ३,१,२५
 ✓श्लोष् पाधा भ्रा पर सघाते
 श्लोष्ण^{११}-मा आश्री २०, ५, १०,
 २२ २१,५^१, द्विधी १७,५,२५^१
 श्व-(>श्व ग (वि>)श्री-पा) पाव
 ४,१,३५
 श्वकम् पाव १,५,५०
 श्वग्म काश्रीस ३२ १९

श्वचिन्^{१२}- श्री अप ४८ १०९,
 निष ४,२, या ५, २२^१, वैश्री
 २५४
 ✓श्वचिन् श्वचिन्^{१३} पाधा भ्रा आत्म
 गतो
 ✓श्वचिन् श्वचिन्^{१४} पाधा आत्म गतो,
 श्वचिन्^{१५} या २,०७^१
 ✓श्वचि पाधा कुता पर अमरवार-
 गतो^{१६}, उम सम्भवभाषण
 श्विष्ट पा ६,१,३१६
 ✓श्वचि^{१७}
 श्वचिन्^{१८} आणिष्ट ३,६,४:१६
 श्वचिन्^{१९}-पाउ १,१५९, पा ६,१,१८२,
 ४,१३३, पाव ४,१,४१,१२३^{२०},
 २, ४५, ८०^{२१}, ७, ३, ४, शुन
 आश्री ३, १०, १४, शोश्री १५,
 २३, १^{२२}, आणप ९ ६, ११,
 २०,३,११,१२, बीधी १४,२३
 २२^{२३}x, माधी ९, १,२, वैधी
 २०, ११ १०, द्विधी १४,१,३३,
 २४, १५,२, १७, लाश्री ९ ८,
 १६, शिष्ट ६७ ११, अप ७१,
 ७,५ आणप १,२१, १५, द्विप
 १, ६,४५ बीष १४, २०, वदे
 ४,१२६, शीष ३,१०, पावा ७,
 १, १, शुना वाप २३, ३, वाप
 ४१२, ४३१, आणप, शुनाम्
 कृशापम २, १६, ३, ६, भाष्ट,
 शुनि बीधी २, ५ १७^{२४}, बीष्ट
 ३, ९, २८, शीष, शुने द्विधी
 १४, १, २०, धनि वाप १४,
 २५ शी ३३१ आणप, श्वच
 बीष्ट ३,१०,२५, शीष्ट २, १४,

a) श्ले^८ इति पाठ ? इति शोध । b) विष (रज) । वा । c) = रोच विरत । d) = कृ-
 विरत- । e) वेप १ द । f) दुग्णे श्लोही इत्यत्र स्थान म्वा दिग् १ ६,११५ पुराणसोद्यत् इति पाठे ।
 g) = चभवत् । h) एष ता २१, १४,१६ सवण इति पाठे । i) दृ nro । j) ✓दग्द १ वने ।
 k) पाठ^१ श्व इत्य इति शोध (इ श्लोके टि एण बीधी १,१३ १४j) । l) = [श्लोके] मरमेन- । विरत
 टि द । m) श्वप । n) श्व^१ ? ।

श्वन्-ग्रहण- गो पासा ७, २, ८
 षंश्वन् व(त) > षी^० - षी अम
 १६, ९, अं ३ : ४९
 श्व पञ्च^० - वचाम् वैष्ट ३, ७. २२
 श्व-पञ्च^० - पाग ३, १, १२४, -च
 वैष ३, १५, ११, -चैभ्य षाष्ट
 २, १४, २२^०
 श्व पल्ल- हान् श्व ७^०, ७, ३
 श्व पद- दम् विष ५६
 श्व पाक^० - पाग ४, ३, ११८, ७,
 ३, ५३, -क शंभ ३७७ १७,
 वीथ १, ८, ९, ९, ११, काथ
 २७८ ९, -कम् वाप २७,
 १३, वीथ ४, ५, १३, -केभ्य
 कौष्ट ३, १०, २५^०
 शीवपाकक- पा ४, ३, ११८
 श्वपाकसमावेपु एणजे^० सुध ४२,
 षंश्व पाद^० - पाव आपञ्चौ ९,
 १७, ५, द्विधौ १५, ७, २५
 श्व य-व^० - नवावाम् वीथौ १५,
 ५, ८
 श्व-मास-मञ्जिन्- षी वैष ३,
 १५, ११
 श्व मातारं वतुल कुक्कुट-मर्कट
 ध्याहृश (द्वा आ) तु पुरीप-
 लिक् पद-कैरा-मृतनख-कुलक-
 पति द्रपस स्वैदा(द-अ)यम् स्तो
 हा(द अ)श्रु आस-क्षरणा (पु
 अ)द्वैवग- षी वीथौ २७, ९,
 ३
 श्व मातारं मकुट शीघ्रम- नानाम्
 वाप २३, २९

श्व मातारं-मकुल-सर्व-मकुट-सूपक-
 -कात् वाप २१, २४
 श्व-सुग-मदिय-मेष-गराह इष्ट्यान्-
 -वन्त वीष्ट ४, २, ७
 श्व-लोमन्- > षि(त) > षी^०-
 -शी^० आशिष्ट २, १, ३ १६^०,
 काष्ट ३५, १, माष्ट १, २३ ५,
 द्विष्ट २, १, ७, -नी थापम २,
 १३, १०^०
 श्व-रट्- वत वाध १४, ११
 श्व-जानर-सिंह-मूक-प्रबग-मुगालनख
 इष्ट्यान्-सुध २६
 श्व-वापस-प्रभु(ति-ठ)पदत-
 -वानाम् वीथ १, ४, ४, ६, ४६
 श्व विष्टा^० - श्यावाम् वाप २, ३०,
 वीथ २, १, ५३
 श्व शिरत्-> ष-मृष्टकशिर-कैल-
 -करुपागह- नद, कौम ४१, ६
 श्व श्याल विष्टपाह-शर वानर-
 वानरा पुआली- षीभि विष
 ५४, १२
 श्व सूकर-श्याल कुपकुट सर्व-
 योनि- विषु भव ४६, ३, ४
 श्व सूकरा(र-अ)रपूत- तम् वीथ
 ३, ६, ७^०
 श्व सूकरा(र-अ)वलीढ- दम् विष
 ४८, २०^०
 श्व सूवाल-गर्दम-शिर्दादि- देपु विष
 ३०, १२^०
 श्व सूवाल गर्दम-संहाद- दे वीथ
 १६, ८^०
 श्व सूवाल मदिपा(प-अ)गा(र अ)

श्विक खर-करम-मकुल मातारं-
 मूपक पच-वच पुष्य-दृष्ट-
 -शानाम् पुष्य ८६ : ७
 श्व हत- -ता वाप ३, ४५
 श्व हान^०-> शौबहान- पावाग ७,
 ३, ८
 श्व कर्ण^०- श्रत ५, १, ६, पावा ६,
 ३, १३^०
 श्व कुन्द- पावा ६, ३, १३^०
 श्व(ध अ)गा(ज अ)दि खर-नासल-
 ससाम् वीथ २, ३, ५४
 श्व(ध अ)जित- नम् आगम १,
 २८, २१, द्विष्ट १, ७, ५७
 श्व(ध अ)द्वि^०- श्यादम् थापम २,
 १६, ११^०
 श्व-दृष्ट, दृष्ट^०- श्रत ५ १, ६, पावा
 ६, ३, १३^०
 श्वीवादृष्ट- पावा ७, ३, ८
 श्व दन्त^०- श्रत ५, १, ९^०, पावा
 ६, ३, १३^०
 श्व(ध अ)दि- -दय वैथौ २०,
 ११ ९, -नीनाम् पावा ६, ४,
 १३३, -दे पा ७, ३, ८,
 श्वदि प्रहण- नम् पावा ७, ३,
 ८
 श्वान-> धात प्रहृत्- -त वीथ
 ३, ६, १
 श्व पाद^०- श्रत ५, १, ६, पावा
 ६, ३, १३^०, -पद जेष्ट
 २, १ ३७, कौम ९५ १, ३,
 मर ४८, ११६, -दम् वीथौ
 २७, ५ ११, वीष्ट ४, १, २, ९,

a) वैष १ द १. b) = वापडाल । c) = [वृष्टायाद् विभ्रायां जाल] जाति-विशेष । d) परस्परं
 पाथे । e) = उभाभ्य उभायां जात-] जाति-विशेष । उप कर्त्तरि कण् प्र । f) पाठ ' वसभापणे इति शोध
 द्वि तत्र सुवच ८६ १४) । g) पत उप = रज्जु- । h) परस्परं पाथे । i) इव इति पाठ । ननि शोध
 (तु काष्ट प्रवृ) । j) उप = वल । k) = पचक- । l) परस्पर पाथे । m) परस्परं पाथे । n) उप
 अधिपरणे <√हा (पती) इति कौश्ट । o) पथ । p) तु पासा पाणि । q) उप <√भृत् । r) हापै
 षन् प्र ।

७, अथा रे, ४, १^१, -दा अथ
१^२, १, ७, ५५, २, २, -^१दात्भा
२, २२ - १३^{१०}, दिष्ट १, ११,
८, -दानाम् अप ६८, २, १८,
-दानि बौधौ २४, ५ २१, -दे
शौशौ २, ६, १३

दौघापद- पा ७, ३, ९

२श्वापद- पा ७, ३, १^०
श्वापद मुत्वा(र-अ)श्वपृष्ट- एम्
शध १८०

श्वापदा(र अ)रमृष्ट- एम्

श्वापधौ ९ १७, ५^०

श्वापदा(द-अ)बलीड- डम्

हिधौ १५, ७, २५^०

श्वापदो(व-उ)प्ल-खर- रागाम्

गोध २३ ५

श्वापुच्छ- पावा ६ ३, १३७^०

श्व(श्व आ)रोहण- जे वाध २७६

७

श्व(श्व अ)वम्रात- तस्य बौधौ १४,

९ १६

श्व वराह- ऋत ५ १, ६, पावा ६,

३, १३७^०

श्वानिष्- ऋत ५, १, ६, -विद

अथ ५, १३, शुभा रे १७, तैत्रा

रे, २ अथा रे ४, १

श्वानिष् छ(<श)लाका- का

कथ ३, ६ ८

श्वानिष्-छ(<श)ल्यक राजक

कच्छप गोधा- ध्या वाध १४,

३९

श्वानिष्-गोधरा शश शक्यक

कच्छप खन्न- आ बौध १, ५
१३१

श्वानिष् पुरीप- पम् बौध २२,
११

श्व(ध-अ)स्य(सि अ)प्लङ्कार- रेपु
पा ४, २, १६

श्व(ध ए)डक वराह- हेपु वाधौ
२५, ४, १८

श्वो(ध-उ)क्लिष्टः(ए-अ)शन- ने
विध ५१, ४७

श्वो(ध-उ)परपृष्ट- एते माप २, ७ १

श्वफलरु- पाठमो २, २ ६

श्वफलरु->श्वफलक चैत्ररु- पा ६,
२, ३४

श्वान्छिक- (>टकावन- पा) वाध
२, ४, ६१

श्व-यन्ध- श्वन्- द

श्वभ्यदा बौधौ २ ५ ८^१

श्वभ्र- पाठमो २, ३ २०, पाग ५, २,

३६, -अ वैताधौ ११ ५, -अम्

वाधौ १६, ३, २०xx, श्वपधौ,

-अस्य द्राधौ १०, ३, २, काधौ

रे ११, १, -आ गोप ४, ७,

१३, द्राष्ट ४, २, १२, -आम्

द्राधौ २, ३ १८, लाधौ १, ७

१६, -अे काधौ ६ ७, १३xx,

श्वपधौ, -अौ द्राधौ २, ३, ३,

लाधौ १, ७ ३

श्वभित- पा ५ २, १६

श्वमास- प्रपु श्वन्- द.

श्वययु- श्वि द

श्वयीचि- पाठ ४, ७१

श्वयौ अथा रे, २, ११

श्वयु- पाधा सुरा पर पत्वाम्

श्वल पाधा भा पर श्राकुगमने.

श्व लोमिनी- श्वन्- द

श्वल्क पाधा सुरा पर परिभाषणे

श्वल्कश बौधौ २, ५ २१^१

श्वल्क पाधा भा पर अ कुगमने

श्व वत्- प्रम् श्वन्- द

श्वशुर- पाठ १, ४४, पाग ५, ४, ३^१,

-२ आधौ २, ११, ८^१, शौधौ

४ २१, १, आसिष्ट, पा ६, २

७१, -२म् आपधौ १०, १२,

१४^१, आधौ १२, ६, -१स्य

आधौ २ ११ ८, माप १, १२

३, -१राणाम् आपम १, ६ ७,

काय २५, ४७, -१राण आपम

१३, १९, वाप १३ ३, आपम

२ ८, ७^१, -१रे आपम १ ६

६, कौष्ट १ ८, १४, काय १ १३

१, वाप २५, ४७

श्व- पावा ४ १, ६ ८, -१शुव

आपम १, १, ८, बौध १ ६ २१

-शुवाम् आपम १, ६ ६^१, -श्व

आसिष्ट १ ७, १ ४, -४वा पा

१, २ ७१, -४वा गोप ६, ८, अथा

१ ३, १४^१, -४वाम् वाप २५,

४०^१, -४रे अथा १ ३, १४^१

श्वशु मा(>)ती- ती माप

१ १२, ३^१

श्वशु श्वशुर शुद्धदेवता(ता-अ)

विधि-पुन- नम् विध २५ ३

d) पाठ १ शोघार्थं पृ २३१६ गृ द । b) विप । तस्येदमीय प्र । c) परपर वामे । d) तु
पाका पासि । e) वैप १ द । f) वाणि <विद्->विष्- । g) व्यप (भावकरणीवपनिम्) ।
h) पृ ८८३ ग्रा द । 1) सपा हिष २, १, १-९ स्नातकाय इति वामे । 2) = सपा ऋ १०, ८५, ४६ । शौ १४ १, ४४
तु श्वशुरेपु इति वामे । h) सपा शौ १४, १, १९ श्वशुर इति वै १८, ४, ८ श्वशुरा इति च वामे । i) सपा
श्वशुवाम् (पै १८, ३, १ च) <> इषकरा (शौ १४ १, ४४ च) <> इषकाम् (ऋ १०, ८५, ४६ मंता १ ३,
२० च) इति वामे । m) श्वशाम् इति पाठ १ मन्ति शोघ (तु ऋ १०, ८५ ४६) ।

श्वशुर-श्वशुर(र-आ)शदि-
 श्र)मिषादना(न-श)नन्तर-
 नम् श्व ३३५
 श्वशुर-पावाप २,१,३६.
 श्वशुर(धू-आ)दि- श्व शष
 १८९
 श्वशुर क- पा ५,४,३
 श्वशुर विष्णुष मातुल(ल-क)दि-
 विजाम विध ३२,४
 श्वशुर-मातुल- लषो शष ३४३
 श्वशुर- पा ४,१,१३७
 श्व श्वशुरात् प्रथ श्वर- द्र
 ✓श्वस् पावा श्वा.पर प्राणने, श्वसते
 अप २९ २, २, श्वसति कौम्
 १३२, ११, श्व ४८, १९१^०,
 श्वसेय माशि १२, ७
 श्वसिति निघ १, १९१^०, वा ७,
 २६
 श्वसत्- सति कौम् ९३, ३८
 श्वसन्ती- न्ती कौम् १३१,
 २१
 श्वसथ- थ कौम् २, ४ २६, १०,
 ८:९, -प्राण् शाश्री १३, १३,
 ३, छल १, ११ २८, -मे वैश्री
 १८, २ ८
 श्वसन्,मा^०- न सु २३ ३६, -नस्य
 या ५, १६१^०, -ना शाश्री
 ४, १९, ८१
 श्वस^०- पा ३, १, १४१, -स अप
 ५७, १, ५, श्वा १३, ४, १४
 २८^१, वैश्री २, ५x४, शीच १,
 १२, आशि ८, १०, १४
 श्वस-काल-> पिसि- विनाम

विध ९, २९
 श्वस-ता- ताम् श्वा १३, १
 श्वस ध्वनि-ससर्ग- गांत् आशि
 ८, १४
 श्वस नाद- दौ श्वा १३, ६,
 आशि ८, ११, २६
 श्वस रोग^१- गा नाशि २, ८,
 १४^६
 श्वस(स न)नुप्रदान- ना
 आशि ४, २
 श्वसिन्- सिन पाशि २७
 श्वसिन्- -सिन^१ आपन २,
 १८, ३६, भाय २, ९ ११,
 -सिम आपन २, १८, ३६ भाय
 २, ९ १२
 श्वसिनी^०- न्नी आश ४, ८,
 २८^१
 श्वस् ()^० आश्री २, १६, १११,
 ७, २, ६, १२, ४, १०, शाश्री,
 या १, ६१^०, पाय १, १, ३७,
 ७, ३, ४, य श्वा शाश्री १५, ३,
 २, कौम् १, ५, २९, कौम्
 शीचरितक- पा ४, ३, १५, ७, ३,
 ४
 श्व-वर्मान्- संघ जैश्री ७ ११
 श प्रभृति- ति काश्री १५, १, ६
 श-दाव्य-नाम-सन्(न्य>)
 न्था- न्थाम् जैश्री ८५
 श श्रेयस- पा ५, ४, ८०
 श श-प्रतीक्षक- का नाशि २,
 ८, २६
 श श्वो-हावन- ना शी १, १३-
 १४, १५^०

श्वस्-तद- पा ४, २, १०५, ३, १५,
 -नम् या १, ६.
 श्वसनी^०- पावा ३, ३, १५
 श्वरलन स्तवन- न्नाय जैश्री ४
 ७२
 श्वस्-न्य- पा ४, २, १०५, ३, १५
 श्व-सुहृत्- न्त्वा शाश्री १०, १,
 १३^१ कौम् १८, २२ १११,
 नाश्री २, १, ३, १९१^०, शाश्री
 १, ४, १७, शाश्री २, ४, १३,
 -न्या शाश्री १४, ४०, १, -न्याम्
 शाश्री ६, ११, १६^१, १२, ९,
 १४, वाश्री १२, ६, २८^१,
 श्वाश्री २१, ५, १६^०, ६, १, २,
 ३^०, वाश्री ३, २, १ १९^१, शिशी
 १६, ३, २^१, ३, जैश्री, -स्वावा
 शाश्री १, ४, २९, -न्यावाम्
 आपश्री १०, १३, ६, भाश्री १०,
 १८, ४, शिशी १०, ३, २४.
 श्व सुवा निमित्त- नम् आश्री
 १२, ४, १३.
 श्व सुवा प्रवच(न>)नी^०-
 नीम् जैश्री ७ १०
 श्व सुवा-वचन- नम् नीम्
 ११ ४, २६
 श्व-स्तोत्रिय- न् वाश्री १२, ९,
 ८, -वा शाश्री १२, २, १, १२,
 १४, १८, -वे शाश्री १२, २, ६.
 श्वो भाव- न्वात् शाश्री १२, ६, ३१
 श्वो भू(त>)न^०- न्नाम् शीच
 २७ ४
 श्वो-व्य- अय आपश्री ४, १, ८,
 वाश्री १, ३, ३

०) या ३, १८ वा ६, १, १८८, ७, २, ५, ७६ पराम् द । ४) या हिलावा श्रुति । ८) परस्पर पाणे ।
 d) या इषे श्रुति । ०) वैप १ द । f) विप, नाप । g) = सर्व विवेक । h) = प्रथम विवेक, श्वस-
 रोग- । z) = वर्षे रोप- । j) वस । k) मन्त्रोमा इति शास । गवा नाशि २, १०० रोविम इति पाणे ।
 l) परस्पर पाणे । m) सप्त नाशि २, ६, ४ १६, १० हाथना इति पाणे । n) = सुद-व्याह- । ०) परस्पर
 पाणे । p) उप श्वशुरात् एतु प्र । q) विप. (पीठनामी) ।

इवो-वशीयत्- पा ५,४,८०
 इवस्वत्- प्रश्न √रवत् द
 श्वा कर्ण- ब्रह्मणिक- प्रश्न श्वत्- द
 श्वात्त्र, श्वा- -श्व श्वाथी ६, १३,
 १६, वीथी ६, १९ १०, वैथी,
 -उत् श्व ४८, ९०^०, निघ २,
 १०, ४, २, मा ५, ३६, -श्व
 काथी ७, ४, ३०^०, २, ४, १०,
 श्वाथी, वाम ३ ६^१
 श्वात्- इवान- इवा पद- श्वत्- द
 श्वापृतत्- आशिष्ट २, १, १ १०
 श्वाकल्क- श्वायव- श्विक-
 श्वरस्- द
 श्वा रोहण- श्वत्- द
 श्वावृत्तत्- द्वि २, २, ४
 श्वास- प्रश्न √श्वत् द
 √श्वित् पाषा म्वा पर मतिरुद्यो
 श्वपथु- पा ३, ३, ८९
 √श्वित् पाषा म्वा आत्म वक्त्रे
 श्वितान- न वीथी ३३, ५ ५^१
 श्विति- > श्वित् (ति) √श्वत्, श्वत्
 श्वित् (ति) श्वत्, श्वत्-
 -तीचे आथी ३ ८, १^१,
 -वयत् श्व २, ७, ३३,
 वृदे ५, १६३
 श्वित्- पाठ ३ १३, -श्व श्वाप
 २ १७, १८^१, श्वाप २, १७,
 २१^१, श्वि २ ८४^१, -प्रश्न
 श्व ३ २६^१
 श्वित्- श्वी श्व २०, ४४,

श्व ३७६, निघ ४५ १३, द्विष
 २, ५, ४९^१
 श्वित् (ति) श्वत् (ति) श्वत्-
 श्वा आथी १०, २२, ४^१, द्विथी
 ७, २, १२
 श्वित्, श्व- पाठमो २ २, १४१,
 पाथ ४, २, ८०^०, -श्वत् आथम
 २, १७, २६, श्वा २, ३, २, २१९,
 -श्व आथी २, ११, २३, श्वाथी
 ३, १८, ८, २२, १९, ४^१, श्वाथी
 ५ ११, १४, २२, २, ११, श्वाथी,
 श्वा २ ३, ३^१, श्वाथी २, ४^१,
 -श्वत् आथी ८, २०, १३^१, २४,
 ३, ३, २६ ८, ३४४, वीथी, श्व
 २१६ ८५^१, -श्वत् श्वा २, २,
 २५, -श्वत् श्वाथी २०, २, १०,
 श्वाथी ७ ५, ७, द्विथी २४, १,
 २२, श्वाप २, १७, २७^१,
 पाथ २, १४, ५^१, श्वा २
 १ १६^१, श्वा २, ७, १^१,
 द्वि २, १६, ८^१, -श्वत् श्वाथी
 १८, ११, २३, २२, १०, १८,
 वीथी ३ ३, ५६, द्विथी, -श्व
 श्वाथी ९, २०, ९, श्व २, १५, १,
 ३^१, २२, १०, ११, वीथी १५,
 ३०६, वीथी ४८ १०^१, १३^१,
 श्वाथी, -श्वत् श्वाथी ३ ४, ११,
 -श्वत् श्वाथी ५ १, ६, २, २, ३,
 १, -श्वत् श्व ५२, ११, १,
 -श्वत् श्वाथी ७, ६, १^१, १८,

११, ३, वीथी १२, ६. १६, १८,
 २३. १०×४, श्वाथी ७, ५, २^१,
 द्विथी १३ ४, १६, -श्वत्
 श्वाथी २०, ६, ४, ११,
 १३, वीथी १५ ७ ११, द्विथी,
 श्वाप २, १७, २७^१ श्वा
 २, ३, ३^१, वीथी ४, ४, १^१,
 १८, ३^१, श्वा २, १४, ५^१, श्वा २,
 १ ६^१, १६^१, श्वा २, ७, १^१, द्वि
 २, १६, ८^१, -श्वत् श्वाथी ३,
 ३, १, ४३, श्वाप २, ७, ७ ७,
 श्वत् १२०, ४, श्व ३८, १, ५,
 -श्वत् वीथी १२, ५ १०,
 १८, ३६, ६ १४४, द्विथी
 २२, ३, ७, -श्वत् श्वाथी १४, ३,
 २०, श्वाथी २१ १६ १, श्व
 १८^१, ५, १, ६३, ५, १, श्वाथी
 २, २^१, -श्वत् श्वाथी २३, ६, ३,
 श्वा ७ ७, २६, श्वत् २४, २३,
 श्व ३३३, श्व २०, २२ -श्वत्
 श्वाप २ ०८, १०, श्वाप २
 ५, ८ ११, वीथी, -श्वत् श्वाप
 २, ५, १ १ श्व २, १ ४
 श्वत्- -श्वत् श्वाथी ३, ७, ३
 श्वित्- श्व ४, २, ८०
 श्वत्- श्वाथी वीथी १४,
 २९: १८
 श्वत् श्व- श्वाथी वीथी २२
 ४ ५ २३, १५ ३, ११
 श्वत् श्व- -श्वत् श्व ५२, १३

a) वैप १ द १ b) = पन १ c) पाने वैप १ श्वात् मा ४, १२ टि द । d) श्वा इति पाठ १
 मनि श्वोव (हु कठ ३, १०) । e) श्वात् इति Old श्वो १ । BC श्वात् इति श्वात् इति १ ।
 f) पा ३ १, ४९, ५८, ६ १, १५, ३०, ३१, ७, ३, ५ ४, १८ पावा १, ४, २, ७, २, १४ पराश्र द । g) या २, २०,
 पा १, ३, ९१, ३, १, ५५ पराश्र द । h) = लुट् विशेष, तदन्तः [श्व श्वाप] । i) पाने वैप १, १३२४ d द ।
 j) तथा श्वित् <> श्वित् इति पाने । k) पाने वैप १, १३२४ e द । l) श्व इति कठ १ मनि
 श्वोव (हु शी ३, २७, ६) । m) श्व (लोमवयणी) तो । वय । n) श्व, नाप । o) श्व १ ।
 p) = श्व विशेष । q) तथा श्वत् <> श्वत् इति पाने । r) = लुट् विशेष-१ । s) = श्वत् विशेष ।
 t) = पराश्र मोड श्व-१ । u) पाने वृ २४०८] द । v) श्वार्थ श्वत् द । w) = लुट् विशेष । x) श्वत् । वय ।

२; -तुः चांशौ १६, २९, ७;
 आपध १, ५, ६; १३, १९; हिष
 १, २, ६; ४, ३३; वृदे १, २४;
 -स्ताम् अथ १, ४१, २१; अर्था
 ११, २.
 श्वेत खर- -रम् बाध २१, २.
 श्वेतगिरि^b अथ १८, १, १६.
 श्वेत-चन्द्रना, न-ञ) मुक्ति(त >)
 सा- -स्ता अथ ३०^c, २, ७.
 श्वेत-च्छत्र- > श्वेतच्छत्रिन्-
 -त्री आपधौ १८, ७, १८; वैश्वी
 १७, १८; ११; द्वितीय १३, २,
 ४२.
 श्वेत-तुल^d- -लाभि आपधौ १४,
 २४, १२.
 श्वेत-दूर्वा- -र्वाः प्राप्ति २, ५,
 ४: ५.
 श्वेत-द्वीप- -रम् विष ४२, ४.
 श्वेत-म्वह^e- -त्रः आपधौ ८,
 १९, ३.
 श्वेत-पल^f- -०क्ष पाठ ३, ६, ३.
 श्वेत-पा(क >) की^g- -पा, पाप ४,
 ३, १६५.
 श्वेत-पाण्डुर^h- -रम् द्वितीय १३,
 ५, २३.
 श्वेत-विद्रुल- -रम् अथ ४०, २,
 २.
 श्वेत-मिपीलिका- -कानाम् कौमु
 ११६, ३१.
 श्वेत-पीतक-लोहितⁱ- -रम् अथ
 ६८, ३, ५४.
 श्वेत-पुण- -प्राणि अथ ३०^j,
 २, ७.
 श्वेत-पुण, प्वा^k- -प्राणि

चांशौ १३, ६, ३^l; -प्रायाः वैपु
 ६३: १.
 श्वेतपुष्पी- -रथाः पाठ १,
 १३, १.
 श्वेत-भौम^m- -रम् संघ ११६: २.
 श्वेत-मालवा(व्य-अ) तुलेपन-
 -रम् रूप ६८, २, १७.
 श्वेत-मृत्ति(वा >) कⁿ- -रम्
 वैश्वी १२, ४: ३.
 श्वेत-रक्त-पट^o- -रा अथ ६८,
 ५, ७; ९.
 श्वेत-रक्षा(क-आमा >) म^p-
 -मा अथ ५२, १, २.
 श्वेत-रक्ष-म-पिनासन- -नाप
 अथ १, २३.
 श्वेत-रक्तपुदिन्- -द्वौ मधौ १६,
 १, २८.
 श्वेत-लोहित-पीत- -नाभि अथ
 ६४, ८, १.
 श्वेत-व(त् >) लो- -नी आपधौ
 १६, ८, ४, द्वितीय १६, २, १०.
 -रथः वैश्वी १८, ५: १६.
 श्वेत-र(त्ता >) रसा^q- -स्ता
 आपधौ १८, ११, २३; वाशौ ३,
 ३, १, ५६, द्वितीय; -स्ताम् प्राथम्ये
 १८, ११, ३, वैश्वी १२, ६: १६;
 द्वितीय १३, ४, १६; -रताया.
 माधौ ६, ३, ५, ११, वाशौ ३,
 ३, १, ४३, -स्तार्थे आपधौ १७,
 १५, २; १९, १, वैश्वी.
 श्वेत-वराह^r- -रम् संघ ११६:
 ३
 श्वेत-वर्- > -र्वा(र्त्त-आ)
 द्वि^s- -नीनि अथ ७२, १.

१४.
 श्वेत-वर्ण- -र्वा. प्राप्ति २,
 ४, १२: ७; वाशू ४: १३;
 -र्वाम् प्राप्ति २, ५, ६: ४;
 -र्वाम् अथ २१, १, २.
 श्वेत-वर्म^t- -पावा ३, ९, ७१;
 -०वाः वा ८, २, ६७.
 श्वेत-वस्त्र(स्त्र-म) तुलेप(न >)
 ना^u- -माः वैपु ३, ९: ४.
 श्वेत-वह- > श्वा(ह-आ) दि-
 -दोनाम् पति ३, २, ७१.
 श्वेत-वापवा(व-आ) मृत्तिल^v-
 -क्षायाम् पाठ २, १४, १;
 -०क्षायाम् पाठ २, १४, १२;
 १४; १६.
 श्वेत-वाह- -वा ३, २, ७१.
 श्वेत-वृत्ताक- -रम् वैपु ३, ५,
 ८.
 श्वेत-सबल- -कः द्वितीय १३,
 ४, ८.
 श्वेत-शि(सा >) ल^w- -रथाः
 अथ ५२, १३, ३.
 श्वेत-संताह^x- -रम् अथ २०,
 ९, १.
 श्वेत(त-आ) द्वि^y- -निः अथ
 ५३, १, ३.
 श्वेत(त-आ) ह्या- -उवा लाशौ
 ८, ६, १६.
 श्वेत(त-आ) प्रिप- -राः वीथीप्र
 २७: ६.
 श्वेत(त-म) तुलना^z- -द्याः
 माधौ ५, २, १, ४४.
 श्वेत(त अ) मार- -रे वाशौ
 १७, ३, २०.

a) = परित-विशेष-। b) = कोशवि विधि-। c) वत्। d) विप. (वर्धितो-रो-।) वप.।
 e) = वनरवि-विशेष-। वप.। f) विप. (उप्योप-।) वप.। g) विप. (वर्त्त-।) द्वप. > मन्त्रो. वप.।
 h) सप्र. तां २, ५, ७ वस्तुत्वानि इति वशि.। i) परस्परं वशि.। j) = वाताल-विशेष-। k) द्वप. > वप.।
 l) नाप.। m) वर. > द्वप.। n) [नर्वाकाम्] द्वप.। o) = मह-विशेष-। p) वैपु १६.।

इवेता(त-अ)इव- -रथाः शार्धौ
१४, ३४, २; बौधौ १८, २३ :
३^२; -इना. शार्धौ १४, २०,
२.

इवेता(त-अ)इवतर^१- -रा. चव्यु
२ : ४.
पुंशवे(स्व >)स्वा^२- -स्या ऋप
४८, ११०; निष १, ८; वा २,
२०६.

√श्विनद् वावा. भ्वा. आत्म. श्वित्ये.
इवे^३ वेजो १८.
श्वेत- प्रभृ. √श्वित् द्र
इचेतयूपि^४- -पयः बौधौ ४८ : ९.
श्वेतरक्तपट- प्रभृ. √स्वित् द्र.
श्वेतायिन^५- -नम् ऋप १, ३, १.
श्वेतीय^६- -वाः बौधौ १५ : १.
श्वेत- , श्वैति- √श्वित् द्र.
श्वो-भाव- प्रभृ. श्वम् द.

प

१पप्^१- पम् श्रुपा ३, ५६; पार. श्रुपा
३, ७९; १४, ऋत ५, ७, ११.
प-पार- -र. ऋपा ४, ८५; उस् ५,
६; श्रुपा, -रम् श्रुपा ४, ४१, ५,
१, श्रुपा ३, २०, तैपा; -रस्य ऋप
४७, २, १; शौच १, २३; -राव
शार्धौ १, २, १४; शौच २, १६;
-रेण श्रुपा ३, ५३; याति २,
८७.
पकार टकारवर्ग- -गौ ऋपा १,
४३.
पकार-पर- -वैः ऋपा ५, ११.

पकार-लोप- -पः उस् ६, ३.
पट- -टौ श्रुपा १, ६७, ऋत २,
१, ६.

पत्न- -त्वम् ऋपा १२, ३१; उस्
५, ३; -रस्य अया ३, १, ७^१;
३, ८; -रस्य पात्रवा ५, ७.

पत्न-ण्वत्- -रस्य माशि १०, ६.
पात्रवणविक- पात्रम् ३४५
पात्र संक्षि(ता >)त^२- -वे उस्
१, १८.

पात्र-स्वर-प्रत्यय^३ पावा ८, २६.
प-पूर्व- -वैः तैपा ७, १३; -वैरय
पा ६, ४, ९.

प-भूत- -न्तस्य उस् ५, ४.
पा(प-अ)न्त^४- -न्तस्य गौच ३,
१०; पा ८, ४, ३६.

पृष्^५- -वेगो १८.
√पाक्, प.कति^६ निष २, १४^१.

पड, ड, षड^७- (> पाड, षडण्वक-
पा) पात्र ४, २, १२७.

पणि^८- -गे शार्धौ १, ३, ८.
पण्ड^९- -पाठ १, ११४, पात्र ४, १, ४१^१;
-ण्डः वौचि ३, ५, २; -ण्डे गौच
२२, २५^१.

पण्टी- पा ४, १, ४१.
पण्टक- -रस्य ऋपा १, १९,
१४^१.

पण्ड-कुपण्ड^{१०}- ष्टौ शार्धौ १०,
२०, १०; निस् १०, १२, ८; १५.

पण्ड^{११}- पाठगो २, २, १२, ०^१; -ण्डः
शौच ३, ७७, ४; १२; -ण्डम्
पाठ २, ७, ९; विष ५०, ३५.

-ण्डस्य वाच १४, १९; शंष
४३४; -ण्डान् विष ३, २१;
-ण्डानि याशि २, ७.

पण्डक- -रस्य हिम १, ५, ११६^१.
पिण्मृषः^{१२} श्रम २०, ५८.

१पप्^{१३}- पाठगो २, १, २०१; पद्
वाधौ १, २, १; २, ११, १४४;
शार्धौ; पद्पट् वाधौ ६, १२,
३; वाधौ १०, २, २४; १५, ९,
१०, ४, ४; माशौ; पद्सु वाधौ १७-
७, ९; वाधौ १२, १, ४, १७,
१७, ४; बौधौ; पद्सुपट्सु
वाधौ ७, २८, ६; माशौ १, ६-
६, २४; आश्रितः पद्भिः शार्धौ
३, १, १०; काशौ १६, २, २५;
आश्रितः पद्भिः वाधौ ७, ४,
१०; शार्धौ ७, १३, ५^१; पयः
पण्णाम् शार्धौ ४, १३, ७^१;
११, ४, ३; शार्धौ; पण्णाम्
पण्णाम् वाधौ १५, ९, ११;
पयः पावा १, ४, १८; ५, ३, ८४.

पट्क^{१४}- -कः श्रम १, ४, ३; ५, ५, ५
६, ४, ४; श्रुपा; -रम् श्रम २,
१०, ५२; ५७; ३, १९; श्रु ८-
५६, ५४, -काः शार्धौ ६, ८, १३
-कात् निस् २, ११ ४; -वालाय
श्रम ३, ४२; -कानि श्रम ३,
१२; -के अरे २०१४, ११, २१;
३ : २८; वि ३, ५६; -शौ श्रम
१, ४, ९; ३, १५; श्रु
पट्क प्रभृति- -रस्य. निस् १, ९२
४; १९.

०) शाखा- वा तदप्यनु- वा । १) वैप १ द. । २) = विधेदेन- । ३) व्यप. । ४) पाठ. ।
इवेतादि इति संज्ञायां टि. शीघ्रः । ५) = संज्ञे-विशेष- । ६) वस. । ७) = छलमिश्र-नक्ष- । ८) वज्रपापीयः
पाठः । ९) पःकति इति सूत्रे. । १०) अन्वयतत्प इति पात्रम्. । ११) पृ १६१ b द. । १२) श्रुपाणि- (श्र १, ७८,
१) इत्यस्य प्रतीकम् । १३) = गुणव- । १४) अर्थः ? । १५) श्रम. मास्व ३, २०३ पण्डके इति पात्रे. ।
१६) पररायं पात्रे. । १७) = संप्रदान- । १८) < √पप् इति । १९) पाठः ? नृमेधः इति शेषः (द्र. ता. १)
२०) शेषान्वयन- । २१) परिमाणार्थे कन् प्र. ।

पद्क-सलक- -कवो श्रया १६,
 २३, पि ३, ११.
 पद्क सलक(क अ)श्र- -का
 सुय ५, २०, -के पि ३, १४.
 पद्-कपाल- -उ बाधो ५, ८, ९,
 भाधो २२, १८, १८, बाधो,
 -सम् बाधो ८, १३, १६, बाधो
 ५, ३१ : १८, २८, ४ : ५, भाधो.
 पद्-कर्म-नित्य- -येन शाय ४, ५,
 १५
 पद्-कर्म-निरत- -त वेध १, ५, ४.
 पद्-कृत्विक्-सुव्य योग- -गम्
 आपम १, ९, ७०, आशिय १, ५, ४
 ४७०, धीय १, ५, ११०, भाय १,
 १९ : १०, हिण १, २२, १४.
 पद्-कृत्यन्त () आपधो ५, १४, ७,
 १५, १२, ५४४, बाधो, कौत्
 १४०, ५०, अय १२, १, ४०.
 पद्-योग- -गम् अय २५, १, ११
 पद्-चत्वारिंशत्- -वात् शोरी १२,
 २, २२, अय ४, २५, निय २,
 १७, या ३, १.
 पद्-चिति- -ति. मीम् ४, ४, १४
 पद्-ग- -यम् आपधो १५, २०, ८,
 बाधो १, ११ ३६, भाधो ११,
 २१, ८, बाध, -यानि बाधुधो ३,
 ७५ : ३
 पद्-त्रिंशत्- -वात् शोरी ६, ६, २,
 १८, १२, ७, बाधो, -वात्. बाधो
 १८, ४५ ४२, -वात्म् बाधो
 ७, ५, ११, १२ ९, १४, आपधो,
 -जग हिधो ११, ७, ६५, १६,
 ३, ५८, -वाति बाधो ८, ३, ८,
 भाय ६, २९, -वात् बाधो १२,

१० : १२, १८, ४५, ४२, -वाति
 वय १, ९, १.
 पद्-त्रिंशत्- -वा. बाधो १०,
 ४२ ११, १८, ७ : १०, -वात्
 आपधो २३, ९, ८, १४, हिधो
 १८, ३, १३, १६, -वा बाधो
 १६, ३४ : ११, -वाति बाधो
 ८, १, ११, १२, बाधो ४, ५ ११,
 १२, -वेन आपधो २२, १२,
 १७
 पद्-त्रिंशो- -शो हिधो
 १३, ३, ४८, -शोम् आपधो २०,
 २१, १२
 पद्-त्रिंश स्तोम- -मेव शोरी
 १४, १५, २
 पद्-त्रिंशत्- -> पद्-त्रिंशो(स-ऊ)
 न- -न निव ५, ११ ४०
 पद्-त्रिंशत् (<शत>) शो-
 -वा बाधो १७, ७, २५
 पद्-त्रिंशत् प्रथम, मा- -मा
 भाधो २, २, १, ५२, -मेव शोरी
 १३, २९, ३, हिनी १८, ४, २७
 पद्-त्रिंशत्-सह(स)का-
 -वा बाधो १४, १५, ६
 पद्-त्रिंशत्-अवर, रा- -र
 लाधो ६, १०, १२०, -रा बाधो
 १२ ९ १५ बाधो १४, १५, ३,
 बाधुधो
 पद्-त्रिंशत् बहुल- -> ल
 प्राग- -गम् वेध १, ६, ४, -नी
 वेध ४ १० ७
 पद्-त्रिंशत् बहुल- -रम्
 आशिय २, ३, १ ८, -ला वेध
 १, ८ ५

पद्-त्रिंशत्-मह-अस (१) ५ पद्-
 त्रिंशत्-हत्त शोरी १७, ७, १२.
 पद्-त्रिंशत्-अन- -न^३ शोरी ८,
 ४, ३, बाधो ४, ८, ४.
 पद्-त्रिंशत्-नात्र- -त्र बाधो
 १६, ३६ १, -त्रम् बाधो २४,
 २, २३, आपधो २३, ६, ३, हिधो
 १८, २, १३, -त्रे बाधो ११,
 ४, ७.
 पद्-त्रिंशत् वर्ष- -> पर्विक-
 -कम् भाधो १२, ५, १४.
 पद्-त्रिंशत् (क) का- -वापम्
 काशु ५, १, हिण २, ७
 पद्-त्रिंशत्- -ति आपधो ११, ४,
 १३
 पद्-स्यच- -चम् विध २६, ५४.
 पद्-स्यवात्- -वात् अय ३१५,
 विध २६ ८४, जग १६, ८१,
 कनिष् ७ : १६, -शत कुम्
 १, ६ २४
 पद्-पद्- -> पद्- -वा शोरी ७,
 १०, ६, निव १, ४ ९, ३, १३ :
 ३०, २४, काशु २, ९, बाध, -दाः
 अय १०, ९, १३, ३, १७, १ :
 -दे अय १२, १, १३, २
 पद्-पदी- -पाग ५, ४, १२९, -पदी
 धीधो १४, १४ : ३१, भाय १,
 ७, १६, शीय १, ८, २८, शाय
 १, १४, ६
 पद्-पद, वा- -द बाधो ५, १, ११,
 -दवात् शोरी ७, २, ८,
 भाध १८, ५०, -दाव्य निव १,
 ७ ४, -दावात् निव १, ७ :
 १७.

a) लक्षितार्थे द्विस. । b) सप्त > पञ्च > त्रय । c) पद्-लु^३ मु^३ इति त्रि-पद पाठः ३ वने शोध-
 -द्वि. आपम लक्ष्णुं टि, हिण १, २२, १४, Old च। d) उत्तरोष्ठ संविदाये. । e) वत् । f) विप, नाप.
 (लोम विशेष-) । g) = पद्-त्रिंशत्-वेध १२ । h) परस्परं पाने. । i) वत् वा कव. वा । j) वत् ।
 k) तेननिर्हृतीवत् वः प्र । l) = पद्-त्रिंशत्- । m) वय. सयावात्. वय् प्र. उर्ध. (पा ५, ४, ७७) ।

पट् पाद्- -वात् अथ ३, २९, ११२

पट्-भुवद्दी(क>)का- -कात् द्विधौ १२, ७, ३०

पट्-कु क(र>)रा- -राम् आप्तौ २२, १०, १०

पट्-प्रकम्- -मम् वैधौ १४ १० =

पट्-प्रगाथ- -थम् लाधौ १० ८, ३, निम् ५, ५ १३ १५ -थेन शाधौ १२ ३, ९

पट्-फ(ल>)ला- -ला अप २६, २, १

पट्-शव- -शम् वैताधौ ३१ १५, लप २६३

पट्-शती- -ती वेज्या ३८

पट्-शमी- -मीम् कौम् १३७, ५

पट्-श(य>)या- -याम् माधौ १७ ३ १३ १४

पट्-षट्- -ष्ट द्विधौ १७ २, ४०, मेअ ९ १३ -ष्टिय औधौ २४, ३२ २०, द्विम् आधौ २२ ५ ११, काधौ २२ २३१

पट्-षट्- -ष्टम् लाधौ ८ ५, २६ १४

पट्-षो(व)शु- -शौ आधौ २२, ५ १४, द्विधौ १७ २, ४२, निम् ६, ११ २७

पट्-सप्तका(क)अ)अक- -का पञ्च १, ४, ७

पट्-सप्तवि- -वि अथा १६ ८६

पट्-सप्त(त)ए)राद(ल>)ल- -ला अथ १, ४, ३, सुभ ५ १६

पट्-सपा- -वम् कौम् ७२, १९

पट्-सूक्त- -का अथ २ १०

पट्-सोत्रिय- -त्र वैताधौ ३३, ५

पट्-स्यु(ए)णा- -णाम् दाधौ २७ ११

पट्-अशु- -शुभम् वैधौ १५, १३ ६

पट्-अक्ष- -क्षम् शंसि २०, ६१

पट्-अक्षर, रा- -र क्रथा १६ २३, २८, ३४, ३५, -रम् काधुधौ ४, १०० ७, वीध १, १६, १०, उद्य १, २, ४, वीध २ १, २५ -रा वीधौ २७, ४ १, शथा १६, १६ -रात् मैअ २२, -रे या ४, २७, १०, -रेण वाधुधौ ४, १०० २७, -रे लनिम् १ १०

पट्-अक्षर दशाक्षर- -रौ निम् १, ४ २३

पट्-अक्षर पा(द)दा- -दानिम् १, २ २

पट्-अक्ष- -क्ष विद्- विद्-व ३ १९, अथ २००, वीध २, ८, ३, वीध १५ २८, लम् २ २०

पट्-अक्ष(ह)द)द्वि- -वम् शंसि ३६०

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

पट्-अक्ष- -क्ष आपथ २ ८, १०, द्विध २ १, ११२, -क्षर पाथ २, ६६ द्विध २३ ५९, -क्ष आप ६ ४

a) पस । b) परस्पर पामे । c) वृ ४३९ ०६ । d) अस् १११ पाठ ३ वनि शोच । e) = ६, म-मा । f) परस्पर पामे । g) पद्म शी पाठ ३ वनि शोच । h) विर । तद्विनिवृत्तिवर्धनार्थं इ प्र उल (ग ५ २, ४५) । i) अस् इति पाठ ३ वनि शोच । j) वृ १३३० ०६ । k) मय मद् = पद्म । l) इति । चर्पण फल शोच (तु पण्यदिप) । m) वे १६ । n) परस्पर पामे । o) तद्विनिवृत्तिवर्धनार्थं । p) शिव (प्रकीर्ण) । q) वाचि <पट्-अक्ष- ।

१८, २३, ७, -चैत क्षम ३, २९,
-चैतः क्षम ४६, १०, ३१, -चैतु
क्षम ४: ५
पठर्ष-क्षम-सं. माथी ५, २,
८, ३१^१.

पठर्ष-क्षम क्षम ४. ८.
पठ् क्षम-सं. क्षम ४, १५,
५, वैथी ९, ७: ८, -क्षम काथी
३, ४, १९, आपथी ३, ३, ५,
७, २६, ६, वीथी, -सं माथी ८,
१८, ४

पठ् क्षम-सं. क्षम २, ४,
आपथी ६९, वीथी १५, रिक्त
२, ३८, चक्षु २, १

पठ् क्षम-सं. क्षम ५, ४:
३९, -क्षम क्षम १, १०, ३,
क्षम ५ ७

पठ्, १^१ क्षम-सं. क्षम ७, ०,
५, ७, १५, १०, १, ७,
११, ४, ९, १३, १६, ५^२, १६,
२८, ३, २९, १९, काथी, -क्षम
माथी १६, ९, १, २०, ८,
१०, २१, १५, १०, १०^३,
वीथी, -क्षम वीथी १४, ११:
२६, २३, १७, ५ क्षम २, १०
१, ६^४, -क्षम काथी ११, ७, ९,
१९, २९, १२, २, ५, काथी २३,
५, १, आपथी २२, २२, १, वीथी,
-क्षम काथी २३ ५ १५, वीथी
१७, -२ ३, वीथी ७, ३, ७
-क्षम निम् १०, ४-४, वीथी
२, १, ४०^५, -क्षम वीथी १४, २७
१ २३, १३ १३^६, काथी,
-क्षम वीथी १६, १ ३ २९
१०^७, हिथी, -क्षम काथी

६, ९, १६: -क्षम काथी २१,
२५, १: -क्षम काथी ८, १३,
३१^८, वीथी १६, १५ ५, ३६.
१४, क्षुप्.

पाठर्षि-क्षम निम् ३ ६.
१४, -क्षम निम् ७, ३: ३, १०,
८, ३, -क्षम निम् १०, १:
३२, -क्षम काथी ६, ९, १०,
निम् ४, ६: ८^९

पठर्ष पठर्ष-क्षम काथी ८, ७,
१६.
पठर्ष-क्षम-क्षम निम् ४, ५
१३.

पठर्ष-क्षम-क्षम निम् ७, ३:
३

पठर्ष प्रतिपठ्-क्षम निम् ८,
२ ९

पठर्ष प्रपठ्-क्षम निम् ५, २
१३

पठर्ष प्रपठर्ष-क्षम वीथी २६,
९ १९

पठर्ष रूप-क्षम निम् १०, ४ ७
पठर्ष वत-क्षम निम् ५, १ ११

पठर्ष रिक्त-क्षम काथी ८,
१, १८, काथी ४ ५ १८

पठर्ष सखा-क्षम वीथी १४,
२०, ८ २६ ९ १८

पठर्ष स्तोत्रिय-क्षम काथी ७,
२ १३ -क्षम काथी ७, २, ७,
-क्षम काथी ७, ४ ११

पठर्ष स्तोत्रिया(व-का)पठ-
क्षम वीथी २५ ३
पठर्ष (ह-का)पठ-क्षम काथी
१२, ३ १७, क्षुप् ३ १ ३५
पठर्ष (ह-का)पठ-क्षम काथी

काथी १०, १, १६, १३, १, १४,
पठर्ष (ह-का)पठ-क्षम निम्
८, २ २

पठर्ष (ह-का)पठ-क्षम-क्षम वीथी
८, ३, ८

पठर्ष (१^१) पठर्ष (ह-का)पठ-क्षम
काथी ११, १, १३, काथी १३,
१५, ९, काथी २४, १, ७, निम्
९, १० ९

पठर्ष (ह-का)पठ-क्षम निम्
९ ११ १३

पठर्ष (ह-का)पठ-क्षम निम् ५,
११ ४

पठर्ष गण-क्षम-क्षम क्षम ३००
पठर्ष आना-क्षम-क्षम क्षम २०, ०, ८.

पठर्ष भाष-क्षम-क्षम क्षम २०, ६, २,
पठर्ष भाष-क्षम-क्षम क्षम ४८, १
पठर्ष भाष-क्षम-क्षम क्षम २, १८,
११, ४

पठर्ष, १^१ काथी-क्षम-क्षम काथी
३, ६, ३

पठर्ष काथी-क्षम-क्षम क्षम २, १०,
१५, १६.

पठर्ष काथी-क्षम-क्षम क्षम १६, ११,
-क्षम काथी ४ ४६ १०, १३,
निम् १८ १३, २४, ३५, ६:
२-४, -क्षम निम् १ १० ३, ५,
-क्षम क्षम ३, ३८, क्षम १ १३.

पठर्ष काथी-क्षम-क्षम काथी १६, ५,
६, वीथी १०, १० ६^१, वीथी
१८, ६ ७^२, -क्षम काथी १६,
१०, ८, वीथी १८, ७ २६, हिथी
१३, ३, २५

पठर्ष काथी-क्षम-क्षम काथी ६, १, ४,
६, काथी २, ९, ३, ५

d) क्षम पाठ । e) क्षम क्षम १, २९, १० क्षम १ ८, ७४ क्षम क्षम क्षम क्षम । f) क्षम क्षम । g) क्षम क्षम । h) क्षम क्षम । i) क्षम क्षम । j) क्षम क्षम । k) क्षम क्षम । l) क्षम क्षम ।

पद्-उपसक्त^१- -कः माधौ ४, ३,
५०, लाथी ८, ११, ५, -रम्
वीथी २५, २७: १; ८, २०;
२८: ८, -एके आपधौ १५, १७,
५, माधौ ११, १२, ५, द्विथी
२४, ५, ६.

पद्-ऊन,ना- -न दाधौ ८, ४, ६;
लाथी ४, ८, ६, निम् ५, ११: ३०,
-ना ऋम २, १, ४४, १६१××;
-ना निम् ५, ११: ३१.

पद् [२^१]^२ज्व^३- -धम् वीथी १५,
३०: २२; वाधूथी ३, ९४:
१४, निम् ९, ३: ३४, गुञ २,
१३३××; षम्, -चस्य वृदे ३,
२७, -चानि माण १, ४, १६;
-चे शाथी १२, २, १८, लाथी
१०, ९, ८, निम् ६, ७: ५३; ६०,
-वेन वीथ १, १४, १०, पाण्ड
१, २२, १३

१पद्-ऋतु-> १तु ह्रद- -द्वम्
आमिण्ड १, ७, ५: ११.

२पद्-ऋतु^२- तुः निम् ७, ३: २१.
पद्-तु-ना- -तया वा ४, २७.

पद्-गव^२- वम् आपधौ १६, १८,
५, वीथी १०, २५ १, माधौ,
द्विपि १५: ३, -चानि काधौ २२,
११, २, लाथी ९, ४, १९, -चे
वाधौ २१ ३, ३३

१पद्-गुण- पावा ५, १, १२४
पाद्गुण्य- पा ५, १, १२४.

पद्गुणित^२- -तऽत अप २१,
२, ४

२पद्-गुण^३- -ग वाञ्छ ७, २३,
-गम् अप २२, ६, ५, मैष १
पद्गुणी^४ > पद्गुणी कृत्-

-तम् वेज्यो २३.
पद्-गुणित- -चानि वीथी ५, १२.
८, २१, ४. १९, २०.

पद्-ज^१- -ज माधि १, ११, १३कुं,
२, २; याधि, -जम् माधि २, ४,
नाधि १, ५, ३, -जस्य माधि
१, ५, १५, -जे माधि १, ९;
नाधि १, २, ११.

पद्-ज-ऋपम-गन्धार्त्- -रः
माधि १, ८.

पद्-ज-ऋपम-गा-धार मध्यम-
पञ्चम-धैवत-निपाद- -दाः भाम्
३, १७.

पद्-ज-ग्राम- -गम् नाधि १, ४,
८, -मे नाधि १, ३, ८.

पद्-ज-मध्यम-गन्धार्त्- रा
नाधि १, २, ६.

पद्-ज-मध्यम-पञ्चम- -मा वीथि
१७५ पाधि १२, याधि १, ७,
नाधि १, ८, ८.

पद्-जा(ज-आ)दि- -द्वय याधि
१, ६, पि ३, ६४

पद्-ज(<ह)वि(न्क<)>का^१-
-काम् अग्राम ६, ७.

पद्-डा(<घा)यात्री २, २, ३, ३,
पाग ६, ३, १०८^२.

पद्-डो(<हो)वृ^१- -तरी शात्री १०,
१७, १, -ना आपधौ १२, १६, ३,
१४, १४, १३, वीथी १७, २१.
८××, माधौ, -धार आपधौ
२१, ११, ७, द्विथी १६, ४, २१,
-तारम् वीथी १०, १७, २, काधौ
६, १, ३३, आपधौ ७, १, २××,
-तु आपधौ २१, १०, ७, वीथी
१९, ७ ५३, २०, २५ १६, द्विथी,

-त्रा आपधौ ७, २३, ११, १०,
२१, ९; वीथी.

पद्-दो-वृ-पद्^१- -द्वेभ्य. आधिण्ड
३ ४, १ ३९, वीथि ३, ३, ९

पद्-धो(शा<)>प->पद्-धो(नरं)
एका^२- -रा वीथी १९, ७.
३१.

पद्-द्वादश-चतुर्विंशत्य(ति अ)पति-
मित-गो- -गवाम् वाधौ १, ४,
३, ४१.

पद्-धा विप १८, १४, ३९, आपधौ
८, ५, कायु, पावा ६, ३, १०८.

पद्-धा-हृत्- -हम् विप १८,
१०.

पद्-भाग^१- -गम् आपधौ १६, ५,
द्विथु ५, २६, -मे वा २२, १, १

पद्-भाग-भृत्- -त वीथ १,
१०, १

पद्-भागो(य<)>पा- -वा वीथ
१७ १२, -याभि बंछ ८
१८

पद्-भागो(य ज)प- -मे आपधु
१, ३, वीथ १ २६, गच्छ १, ४.

पद्-भेद^२- -रा चयु २ ६

पद्-सुच- -कम् माधौ ६, १, ५
३७, वाधौ २, १, ४, ३८

पद्-सुक्ता(क ज)सुच- -कस्य
अप १, ३२, १

पद्-सोम^१- -गम् काधौ ५ ११,
१२, आपधौ ८, २०, १०, वाधौ
१, ७, ५, ३

पद्-सु^२रात्र- -रम् काधौ ४,
१०, १६, वीथी १३, १४ १७,
वीथ १, १०, १८, पाण्ड, -त्रे
आपधौ २२, १४, ७, लाथी ९,

a) वत. । b) शाथी. पाठ । c) विप (यत्सर्-). बस. । d) वृ १०४८ । इ । e) हलत्
प्र. उत्तं (पा ५, २, ३६) । f) नार (स्वर-, ग्राम-) । g) हल. > मलो. कस. । h) तु. पागम । i) वीथ १ इ ।
j) वस. । l) = एका-विशेष- । l) पूष = पठ ।

१२, १५, वाण ५, ४२; अण ३८, ३, ७^१; -प्रेग शाभी १६, २५, १, ७, विष २२, २४.
 पद्मरात्र-त्रिरात्र- -त्रान्वाण् विष २२, २३.
 पद्मरात्र-त्रिरात्रै (त्रि ए) करात्र- -त्रै विष २२, २२.
 पद्मरात्र-नवरात्र- -त्रयो नित् ८, ८ १८
 पद्मरात्र प्रसूति- -उग्र नित् ९, ८ : २४, -नित् नित् ३, ७: १३.
 पद्मरात्रो (त्र-उ) पोषित- -त्र शष ४०^१
 पद्म-वत् आभी ९, १३, १५
 पद्म-वत् अं २-३.
 पद्म-वत् -> पद्म-वत् अं - -उम् शौष १८, १५, २२, १३
 पद्म-वत् - -ति आभी ३, ३, १^१, ३, १०, ८, ७, शाभी - -ति ५ वि. शाभी ६ १, १०, शाभी ५ २, ९, ५, -तिभिः शौष ३, १२, १
 पद्म-वत् - -त्र वृदे ६, ८४, अण ९, ७, अण ५ ७, -उम् अण ८, २, ६, ९, अणयो ९, ९
 पद्म-वत् प्रथम- -म् शौषि २, ४, १०
 पद्म-वत्-स्वान- -नम् नित् १०, ३ ४
 पद्म-वत्-क- -कम् अण ११, ४, ५ ९, -नानि अण ४ २७
 पद्म-वत्-रात्र- -उम् आभी ११, ३ ११, काभी २४, २, २२,

आपधौ २३, ४, ५, द्विषी १८, २, ३.
 पद्म-वत्-रात्र- -उम् आभिण २, ५, ३ : ३३^०.
 पद्म-वत्-रात्र- (ः)
 शौष ३, ७, २२^०
 पद्म-वत्-रात्र- (ति-अ) हुरा (ल-आ) वत- -त वैधौ १, १ २७-२८.
 पद्म-वत्-रात्र- -उम् शाभी १६, २५, १, २, ५, शौषी १०, १९ ८, शेष १००, शौष, -पा वाच २३, २२, -पा. शौषि २६
 पद्म-वत्- -उम् अण ४६, ८, ४.
 पद्म-वत् (<न) वति- -ति अण ५२, ५, १, अण १६, १०, -त्यै तैसा ७, २^१
 पद्म-वत् (<नि) वत- -नम् नित् ९, १ २८
 पद्म-वत् (<नि) वत (>) नी^० - -नी शौष ३ १, ५, २, १, २
 पद्म-वत् - -उ. सप्रा १५ ५, शौषि ३४६
 पद्म-वत् - -स वैध ५, १४ ३^१, -सात् अण ६२, ३, ३, ४१, ४, २, ५, ५, द्विष १, ७, ५५^१, -स आभिण ३, ३ १५^१, १२ १ १^१, वैध ६, १६ १७, शौषि २, ६, १८, अण ४३२ -सै ७०^१, ११, २, ७०^१, ७, १
 पद्म-वत्-क- -पा ५, १, ८३, -कम् वैध २, ११ ७, अण ४६, १ २ -के वप्र ३, ५, ८, १

पाण्मास्य- -पा ५, १, ८३, ८४, -स्य आभी ३, ८, ५, शौषी २६, २९ : ३, -स्यम् शष २५२, -स्येऽ स्त्रे द्विषी ४, १, १^१.
 पद्म-वत्-रात्र आभिण ३, ३, २ : ३०.
 पद्म-वत्-रात्र- -दे वैधौ २०, ३१ १
 पद्म-वत्-रात्र- -उम् आभिण ३, ३, १ : ४, २-३०, -दे आभिण ३, ३, २ : १५
 पद्म-वत्-रात्र- (स-उ) वत- -रे अण ५४, १, ४.
 पद्म-वत्-क- -पा ५, १, ८४.
 पद्म-वत्-रात्र- (स-उ) व- -उम् अण ७१, ५, ३
 पद्म-वत्-रात्र- -पा ५, १, ८३, -स्यम् शाभी १५, १०, ९, वाभी १६, ६, १३, -स्ये आभी ४, १०, ७, पाण २, ३, ६
 पद्म-वत्-रात्र- -स्यम् शौष २, ५, २२^१, -सात् अण २४, १, ४
 पद्म-वत्-रात्र- (स-उ) व (मा) - -म् आभिण २, ५, ६-६
 पद्म-वत्-रात्र- (स-उ) व (मा) - -ती वैधौ ८. १५^१ - पा ५, १, ५९, पाण २, ४, ३१^०, -द्वि आभी १, ३, २४^१; शाभी १, ६, २^१, आभी, -द्वि ५ द्वि आभिण १६, १२, द्विषु ५, ३३, -द्विम् आभी ८, ३, १० शौषी १२ १४, १५, आपधौ १८ ८, ७^१, शौषी

a) वेदनिर्दिष्टमित्यर्थे इति उप श्रुति (वा ५, १, ८८, ७, ३, १९) । b) दुह्यु प्र (वा ५, १ २४) ।
 c) पाण. श्रुते कृत्वा <> शतकृत्व इति पाठे । d) वस । e) इति श्रुति । वस उप. = क्षेत्र परिमाण-
 (वीथ इति नमा) । f) पू = पशु- (द्वि C) । g) वा पद्म-वत् इत्यस्य स्थाने तथा आपध १, २९, १९
 पद्म-वत् इति पाठे । h) = पद्म-वत्-क- । वेदनिर्दिष्टमित्यर्थे प्र लुक् वस (वा ५, १, ८८) । i) सार्धे प्र
 इति भाष्यम् । j) = पद्म-वत्- । k) सनाइरे इति । l) वै १ प्र । m) द्वि. पाणम् । n) पदि प्री-
 इति पाठ ३ पदि श्री इति शेष (तु तैसा L १०९५) ।

पद्-उपसर्क^० -क माथ्री छ, ३,
 ५०, लाग्री ट, ११, ५, -रकम्
 वीथी २५, २७ १, ८, २०,
 २८: ८, -के आपथ्री १५, १२,
 ५, माथ्री ११, १२, ५, द्विथी
 २४, ५, ६
 पद्-ऊन, ना- न श्थ्री ट, ४, ६,
 लाग्री छ, ८, ६, निरू ५, ११ ३०,
 -ना श्थ २, १, ४४, १६१xx,
 -ना निरू ५, ११ ३१
 पद्, लृ^० -रुच^० - अम् वीथ्री १५,
 ३० २२, बाधुथ्री ३, १४
 १४, निरू ९, ३ ३४, दुल २,
 १३३xx, अथ, -रुच्य यूदे ३,
 २७, -चानि माथ १, ४, १६,
 -के श्थ्री १२, २, १८, लाग्री
 १०, ९ ८, निरू ६, ७ ५३, ६०,
 -केन कीथ १, १४, १०, शाथ
 १, २३, १३
 १पद्-रुच-> तु रु-रु- -रुम्
 आथिथ १, ७, ५ ११
 २पद्-कालु^० - तु निरू ७, ३ २१
 पद्दुत वा- -रुवा वा छ, २७
 पद् गण^० - वम् आपथ्री १६ १८,
 ५, वीथी १०, १५ १, माथ्री,
 द्विथि १५ ३, -वानिकाथ्री २२,
 ११, २, लाग्री ९ ४, ११, -के
 काथ्री २१ ३, ३३
 १पद् गुण- पावा ५ १, १२४
 पाद्गुण्य- पा ५ १, १२४
 पद्गुणित^० - न ड त शर २१,
 २, ४
 २पद् गुण^० - ग काथु ७, २३,
 -गम् अथ २२, ६, ५, मैथ १
 पद्गुणी/क > पद्गुणी हत-

-रुम् नेउथे २३
 पद्-गृहीत- -नाथि वीथी ५, १२
 ८, २१, ४ ११, २०
 पद् ज^० - अ माथि १, ११, १२०,
 २, २, माथि, -अम् माथि २, ४,
 नाथि १, ५, ३, -अथ्य माथि
 १, ५, १५, -अ माथि १, ९,
 नाथि १, २, ११
 पद्-अपम-गन्धार^० -र.
 माथि १, ८
 पद्-अपम गा धार मध्यम-
 पद्मम-वैषण निपाद- -दा भासू
 ३, १७.
 पद्-अपम- -अम् नाथि १, ४,
 ८, -अ माथि १, २, ८.
 पद्-अपम-गन्धार- रा
 नाथि १, २, ६
 पद्-अपम पद्मम- -मा शैथि
 १७५ पाथि १२, नाथि १, ७,
 नाथि १, ८, ८
 पद्-आ(ज आ)दि- -दथ याथि
 १, ६, पि ३, ६४
 पद् ल(<ह)वि(क)>क^०-
 -काम् अथय ६, ७
 पद्-आ(<धा) वाग्री २, २, ३, ३,
 पाग ६, ३, १०८^०
 पद् हो(<हो)रु^० -रुथि वाग्री १०,
 १७ १, -ता आपथ्री ११, १६, ३,
 १४, १४, १३, वीथी १७ २१
 ८xx, माथ्री, -तार आपथ्री
 २१, ११, ७, द्विथी १६, ४, ३१,
 -तारम् श्थ्री १०, १७, २, काथ्री
 ६, १, ३३, आपथ्री ७, १ २xx,
 -त आपथ्री २१, १०, ७, वीथी
 १२, ७ ५३, २०, २५ १६, द्विथी,

-ता आपथ्री छ, २३, ११, १०,
 २१, ९, वीथी
 पद्दोतृ पद्^० - अथ्य आथि
 ३ ४, १ ३१, वीथि ३, ३, १
 पद्-शो(ना)>प->पद्दोतृ(व शी)
 छका^० -ना वीथी १९, ७
 ३१.
 पद् द्वादश चतुर्विंशत्य(ति प्र)मि
 मित-गो- -गताम् वाथी १४,
 ३, ४१
 पद् पा विथ १८, १४, ३९ आथु
 ८, ५, शाथ, पावा ६, ३ १०८
 पद्-धा ठव- -रुम् विथ १८
 १०
 पद्-भाग^० - गम् आपथु १६ ५
 द्विथु ५, २६, -गो शर २२ ३१
 पद्-भाग श्रुत- -ना वीथ १,
 १०, १
 पद्-भागी(य)>प- -ना वीथ
 १७ १२, -नाथि वीथु ८
 १८
 पद्-भागो(य ल)न- -ने श्थ
 १ ३, वीथु १ २९, अथु १, ४
 पद् भेद^० - दा वयु २ ६
 पद्-युक्त- -केन माथ्री ६ १, ५
 ३७, वाथ्री २, १, ४ ३८
 पद्-युक्त(क अ)युक्त- कथ
 अथ १, ३२, १
 पद् योग^० - गम् काथ्री ५ ११,
 १२, आपथ्री ८, २०, १०, श्थी
 १, ७, ५, ३
 पद्, लृ^० राज^० - अम् काथ्री छ,
 १०, १६ वीथी १२, १४ १७,
 वीथ १, १०, १८, पाथ, -ने
 आपथ्री २२, १४, ५, लाथी २,

a) वत । b) शीथ्री. पाठ । c) विथ (वत्सल-) वत । d) पृ १०४८ । e) दृष्ट
 म उत (वा ५, २, ३६) । f) नार (हर- , राम) । g) दत्त >मलो कस । h) तु पागम । i) वैप १६ ।
 j) पत । k) = दृष्टवा-विशेष- । l) पू = पठ ।

१२, १५, वाच ५, ४२; अत्र ३८, ३, ७; -श्रेय शांती १६, २५, १, ७, विष २२, २४.
 पद्मराज शिराग्र- -ग्राम्याम् विष २२, २१.
 पद्मराज-शिराग्री (त्रि ए) कराग्र- -श्रे विष २२, २२.
 पद्मराज-नवराज- -ग्रयो निम् ८, ८, १८
 पद्मराज प्रभृति- -तय निम् ९, ८ : २४, -तिष्ठ निम् ३, ७, १३
 पद्मराजो(न-उ)शोषि- -त शय ४०१
 पद्-वत् वाची ९, ११, १५
 पद्-वर्तम् अं २ ३.
 पद् वर्ण-> पद्वापिर्क- -रम् गीण १८ १५, २२, १३.
 पद् विंशति- -ति आशी ३, ३, ११, ३, १०, ८, ७, वाशी, -ति ५ ति. शांती ६ १, १०, माशी ५ २, ९, ५, -तिनि. शीष्ट ३, १२, १
 पद्विंश- -त वृदे ६, ८४, अश २, ७, अश ५ ७, -रम् अज ८, ३, ६, ९, अशयो ९, ९.
 पद्विंश प्रथम- -म वीति २, ४, १०
 पद्विंश स्थान- -रम् निम् १०, ३ ४
 पद्विंशक- -रम् अश ११, ४, ५, ९ -कानि अश ४ २७
 पद्विंशतिनात्र- -रम् आशी ११, ३ ११ काशी २४, २, २२,

आपश्री २३, ४, ५, शिशी १८, २, ३.
 पद्विंशति रात- -रम् आशिय २, ५, ३ : ३३०.
 पद्विंशतिश १ ह्यास्य (ः) वीष्ट ३, ७, २२०
 पद्विंशत्य(ति-अ)द्रुला(ल-आ) पत- -त. वीशी १, १ २७-२८
 पद् विध, धा- -धम् शांती १६, २५, १, २, ७, वीशी १०, १९ ८, शेष १००, वीष, -धा वाच २३, ३२, -धा. वीषी २६
 पद्-अत्- -रम् अश ४६, ८, ४.
 पद् ग (<न)रति- -ति: अश ५२, ५, १, अश १६ ९०, -श्री वैषा ७, ११
 पद् गि (<नि)धन- -रम् निव ९, ३ २८
 पद् गि (<नि)धत् (>)नी- -नी -वी ३ १, ५, २, ३, ३
 पद् गान- -ज अश २५ ५, शीति ३४६
 पद् गान- -त वैश ५, १४ ३, -रात् अश ६९, ३, ३, ७३, ४, २, ५, ५, हिष १, ७, ५५, -से आशिय ३, ३ २ १५, १२ १ १३, वैश ६, १६ १७, वीषि २, ६, १८, अश ४३२ -से ७०, ११, २, ७०, ७, १
 पाण्मासिक- -वा ५, १, ८३, -रम् वैश २, ११ ७, अश ४६, १ ३ -के पत्र ३, ५, ८ ९

पाण्मास्य- -वा ५, १, ८३, ८४, -रम् आशी ३, ८, ५, वीशी २६, २९ : ३, -रम् राष २५२, -से-से तिशी ४, १, १, पाण्मास-वत् आशिय ३, ३, २ : ३०.
 पाण्मास विच्छेद- -दे वीशी २०, ३१ १
 पाण्मास-प्राद- -रम् आशिय ३, ३, १ : ४, २ ३०, -दे आशिय ३, ३, २ : १५
 पाण्मासा(स अ)म्यन्तर- -रे अश ५४, १, ४
 पाण्मासिक- -वा ५, १, ८४.
 पाण्मासो(स-उ)ध- -रम् अश ७३, ५, ३
 पाण्मास्य- -वा ५, १, ८३, -रम् शांती १५, १२, ९, वाशी १६, ६, १३, -रवे काशी ४, १०, ७, पाय २, ३, ६
 पाण् मुख, खा- -रम् वीष २, ५, २२, -रा अश २४, १, ४
 पाण्मुखो(ख-उ)म(मा)>म- -म आशिय २, ७, ९ ६
 पाण् मुख(ति)>नी- -ती वैजयो ८, १ पति- -वा ५, १, ५९, पाय २, ४, ३९, -ति आशी १, ३, २४, वांशी १, ६, २, आपश्री, -ति ५ ति आपश १६, १२, हिशु ५, २३, -तिम् आशी ८, ३, १०, वांशी ६२, १४, ११; आपश्री १८, ८, ७२, वीशी

a) तेन निर्भूतमित्यर्थे अत्र उप. इति (वा ५, १, ८८, ७, ३, १६) । b) द्रुतम् (वा ५, १ २४) ।

c) सग अन्ते वृत्वा <> अतएव इति धामे । d) वश । e) = ह्येति इति । वस उप. = क्षेत्र परिमाण- (वीष इति नभा) । f) पूर = पट- (तु ०) । g) वा पाण्मास्य इत्यस्य स्थाने स्या आपश १, २९, १९ षण् मासात् इति धामे । h) = पाण्मासिक प्राद । तेन निर्भूतमित्यर्थे प्र लुक् उच्यते. (वा ५, १, ८८) । i) स्वार्थे प्र इति भाष्यम् । j) = पदान्तम् । k) समाहरे इति । l) वै १६ । m) तु पावम् । n) पति प्री इति पाठ । पति प्री इति शेष (तु वेग १ १०९५) ।

-ष्टीः वीथु १७ : ९; -ष्टेः
 अर्धं ४ : १०; -ष्टयः आपण्डु
 १६, १३; १७, २; -ष्टया विष
 ४७, ९; देवयो १३; -ष्टयाम्
 कौम् ६२, १; अत्र १२, ३.
 पष्टि-क^० - पाण २, ४, ३१^b;
 -कः वा ५, १, ९०; -कं पावा
 ५, १, ९०.
 पष्टिक- वा ५, २, ३.
 पष्टि-त्रिशात^० - ने निम् ५, १२ :
 ८.
 पष्टि-वृक्षि(णा >)ण^० - गरस्य
 आपथी १०, २६, ४; वैथी १२,
 १९ : ३.
 पष्टि-दी(क्षा >)क्ष^० - शम्
 वाथी २४, ५, १२.
 पष्टि-पथ-> पष्टिपथिक-
 पाष्टिपथ^० - पावा ४, २,
 ६०.
 पष्टि-मान^० - रम् वीथी २६, ६ :
 १३.
 पष्टि-नात्र- -शात् आथी ११,
 ४, ८; मात् ३, २० : ५; -त्रेण
 वा ५, १, ९०.
 पष्टि-वात् - रम् वाथी २२, ३,
 २५, -साम् आथिय ३, ६,
 २ : १८, -सामि आथी ६, ६,
 १०; ८, १३, ३९; वाथी ४, १५,
 ९; २१×४; वाथी; -ते भेष
 १४.
 पष्ट(ष्टि-अ)धिक^० - कै. विष
 ९६, ५५.
 पष्टधिक-शतत्रय- -रम्
 देष्ट ५, १२ : ३.
 पष्ट्वा(ष्टि-अ)दि- -देः वा ५,
 २, ५८.

पष्टु(ष्टि-अ)पाधिक^० - कम्
 वृदे ३, १४९.
 १पष्ट- वा ५, २, ५१; -ष्टः वाथी
 १६, २५, ५; आपथी १७, १६,
 १८; वीथी; -ष्टम् आथी ११,
 ७, ३; वाथी १०, ७, १; १५, २,
 २३×४; वाथी; -ष्टस्य आथी
 ७, ७, ८; ८, १, १; ८, ८; वाथी;
 -ष्टाः वीथी २६, ११ : २७;
 -ष्टात् आथी ११, १२; वाथी
 १०, १३, १७; ११, २, ९×४;
 वैथी; -ष्टान् आथी ६, ३, १२;
 -ष्टानि वैथी १, १ : २०; -ष्टाय
 अप ४६, ९, २; अत्र १२, २२;
 -ष्टे वाथी ५, ८, ६; ७, ११,
 ४०×४; वाथी; -ष्टेन वीथी
 २९, २ : ५; वाथी १, २, ३, ७;
 ७, २, १६; वाथी.
 पष्टी(वमा.)^० - ष्टी वाथी
 १, ९, १६; आपथी १२, १५, ११;
 २२, २७, ५, १५, वीथी; मात् २,
 १३, ६^०×४; अत्र १६, ५;
 वा १, १, ४६; २, २, ८×४,
 पावा २, ३, २२; ४, १, १२०;
 आजयो ६, २; -ष्टीम् आथी २,
 ४, १४; वाथी ७, १५, १२;
 आपथी; ष्ट्याथिय २, ५, ३ :
 २२^१, ६, ३ : २६^१; काष्ट १२,
 ७^१, वीथु ३, ७, १७; मात् २,
 १३, ६^२; वीथु २, ५, २२^१; ३,
 ८, ९; पावा १, ४, ५१; आजयो
 ६, ९; -ष्टम् आपण्डु १७, ८,
 वीथु ८ : ०२×४; द्विष्टु; -ष्ट्या
 आथी १, ६, ३; वीथी १०, २९ :
 ६; २५, ३० : ११; वैथीवा
 ३४६; उत्र १, ४, ७; कौम्;

-ष्ट्याः वीथु २, ७१; वा ५, ३,
 ५४; ४, ४८×४; पावा १, १,
 ३; ४९×४; -ष्ट्याम् आथी ५,
 १०, ७; वीथी १६, २ : ११;
 १३ : ११×४; वाथी; आपथी
 १३, ६; -ष्ट्यै मात् २, १३,
 ६^१; -ष्ट्यो माथी ५, २, ५,
 २१; वाधुथी ४, २६^१ : १५;
 वीथु १७ : १४,
 पष्टी-कल्प- -रम्
 मात् २, १३, ३.
 पष्टी-चतुर्धा-द्विधी-
 वा-रथ- -रथयोः पा ८, १, १०.
 पष्टी-निर्दिष्ट- -ष्टस्य
 पावा १, ५, ६; ३, १, १.
 पष्टीनिर्दिष्टा (ष्ट
 अ)थे- -ष्टम् पावा ६, १, ८३.
 पष्टी-निर्देश- -रम्
 पावा १, १, ६७; २, २, १४.
 पष्टीनिर्देश(व-शे)
 र्थ- -र्थम् पावा १, १, ६१, ८
 १, १.
 पष्टी-प्रक्रम- -ने
 पावा ६, ३, २०.
 पष्टी-प्रवृत्ति- -ष्टिः
 पावा १, १, ६७.
 पष्टी-प्रतिवेष्ट- -रम्
 पावा ३, २, १२६.
 पष्टी-प्रवृत्ति- -रम्
 वाथी ७, १५, १.
 पष्टी-प्रसङ्ग- -रम्
 पावा २, ३, ५२.
 पष्टी-पुक्त- -कः
 वा १, ४, ९.
 पष्टी-व्यपन-विधि-
 -विः पावा ५, १, ५९.

a) = ष्टी-वेष्ट-। b) वृ. पावम.। c) = २६०। d) वस, लप. = २६।
 f) वृ. पावम.। g) यमादारे द्विष्ट.। h) विष, नाथ, ४२१.। i) = देवी-विशेष-।

पट्टी-विधान- -२
 पावा २,२,६५
 पट्टी(घा-र)दि- -दि
 काण्ड ४३ १५^०
 पट्टोप्या(दि षा)
 द्रवमा(ण षा)धान-चातुर्मास्वा-
 (स्य-आ)दिक्- -कानि वाठ
 ४३ ११^०
 पट्टी-सप्तमी- -म्भी-
 म्याम् गोण्ड ४, १, १६, -म्यो
 ऋध २,२,३३
 पट्टी-सप्तम्यो- -थैव
 पावा ५,१,१४^०
 पट्टी सप्तम- सा
 पावा २, १, ३५, ७, ४, ६०,
 -सस्य, -सात् पावा २ २ १९
 पट्ट्य(शी-प्र)धिकार-
 -ने पावा १,१,३, ४६
 पट्ट्य(शी म)निर्देश-
 -सात् पावा ७,१,९०.
 पट्ट्य(शी-प्र) = १-
 -म्यो पावा १, २, ४२, २,
 २,३०, -म्यो जैश्रीका ८८
 पट्ट्य(शी-प्र)मात्र-
 -सात् पावा ७,२,३७
 पट्ट्य(शी-प्र)कुव-
 -युभिः ऋध २,१०,१०
 पट्ट्य(शी-प्र)थै- -थै
 पापवा १०, -थैम् पावा ६, २,
 ११, -थै पावा २,६०, ५ २,
 ६५
 पट्ट्यथै- -स्वात्
 पावा १,१,४६
 पट्ट्यथै प्रेशा-

-धा वा १,१७
 पट्ट्यथा(थै ऋ)
 प्रसिद्धि- -दि पावा १,१,६१,
 ६,१,८३, ८,१,१
 पट्ट्या(शी रशाव>)
 सा- -द्याभिः ऋध २,३,८
 पट्ट्या(शी-मा)मानि
 सकारक- -वचन- -न्म् पावा २,
 १,२
 पाठ- पा ५,२ ५०, ५१
 पाठ- -ठव गौष १०,
 २६^०
 पट्टिक- -कानिलाधौ ९,५,
 २१, निम् ९,११ २०
 २पठ- पा ५ ३,५०,५१
 पठ- -वा ५, ३, ५१, -कम्
 वाति २,२२^१
 पठकाल- > पठस्यलिक-
 -क शय २५२^०
 पठ- -न्ने लुम् २, १४
 २०
 पठनवम- -म्यो लुम् २,१५
 ३०, निम् ९, ३ ६
 पठपुरप(प-अ)वधि- वि
 वैण्ड ६ ४ १
 पठप्रभृति- -दि माण्ड ३,२१
 ७, -वीशार्य शशी २,१७,१४,
 २०,३
 पठभाग- -मम् दिव ३ २५^०
 पठमाता(स-दा)दि- -दौ
 वाधौ २४ ४ ९
 पठव्यास- -सम् आण्ड १६,
 १
 पठसप्तम- -म्यो वाधौ १२,

१,२३, निम् ९, ३ ३४, लाघ
 २, १०७६, १०७७, -मो वीण्ड
 १,२१,१६, माण्ड १, २८, १८,
 -मो वीण्ड १,११,११
 पठ-सप्तमो(स उ)धम- मान्
 वाधौ १२,१ ३
 पठस्थान- -ने दाश्री ८,४,१५,
 लाधौ ४,८ १३
 पठ(ट मा)दि- -द्वम् ऋभा १,
 ७१, -श्री दाश्री ८,४,७, लाधौ
 ४,८,७
 पठ(प्र-मा)प- -सस्य दाश्री
 ८ ४,५, लाधौ ४ ८,५
 पठ(प्र म)ज-मग- > पठस-
 सतिक्- -पावम ३६०
 पठ(प्र म)थै- -थै निम् ८,१२
 १२, -थैन निम् ८, १० १३,
 पठ(प्र म)धम-दादस- -थेण्ड
 साध २,३१०-३१४
 पठ(प्र-म)हम्->पठसिक्-
 -न्म् शा.श्री १२ ७, ३, -के
 वा.श्री १५ ८,४
 पौ-<(र)व- पावा ५, ४, ३८,
 पावा ६, ३,१०८
 पौधल- पा ५ ४,३८
 पौ प्र<(र)व- लुमा ३, ४७
 पौध<(र)व- पावा ५,४, ३८,
 पावा ६,३,१०८ -श वाधौ ९,
 ८,१५, वाधौ, लुमा ३ ४७, ५,
 ३७, शीव १,६३, श्यामो १२,११,
 -तठ-न्त वाधौ ९,४,४, -शभि
 वीधौ १४ २० १, वाधुश्री
 ४, ६४ ०, १०० १४४,
 दिश्री, -शामु वैश्री १७,

a) ष्टी इति पाठ ? यदि शोध । b) पट्ट्यतेष्व इति पाठि । c) स्वायें व्यञ्ज प्र । d) सप्त
 विध ३ २५ पठमागम् इति, मनु [७, १३२] पठमागम् इति च पाठे । e) मगार्थे टक प्र । f) स्वायें प्र ।
 g) = पठकालाहार-। मत्वर्थे ठम् प्र । h) एप्र मनु [६ १९] अष्टमकालिक् इति पाठे । i) वैप १ द ।
 j) ष्व इति पाठ ? यदि शोध ।
 देवप्र ४३

११ उ, -शसुऽ-वासु शांश्री
१४, ६१, ५, -दानाम् वाधुश्री
४, ७२. ५

पोडसान- पा ५, ४, ३८
पोडस^०- शंशु^० वा शंश्री १७, ३,
२१, वीथी १०, ४५ : ३,
हिथी १२, १, २७, -सम्
शांश्री १५, १२, १४, १६, २१,
५, आपश्री २०, २१, १०, वीथी,
अप ४२, ५, ७, आज्यो ९, ८;
-मायोऽनिसु ६, ११: ०८, -शाः
वीथी १८, २७ : २-८, १०-१२,
-शात् आट १, ११, ५, वीथ
२, १, ५, वाण २, १, ६, पाण,
-शान् अप २१, ६, ४, -शानि
वीथी १५, १८ : ६x५, हिथी
१, ७, ४६, -ते लाश्री ६, ८, ८,
आट १, १८, २, वीथ १, २१,
१७, शाण, -कौ निसु ६, ११.
३४

पोडशी^०- शी वीथी
२४, २१ : २, ५, काशु ३,
१०, -श्रीहि १७, २, ३२,
वीथु २१ : २, -शीभि. आपशु
२०, २, ४, १३, वीथु १८
१, २१ १, हिथु ६, ६, ५३,
-श्रीम् आपशु ९, १^०, वीथ १,
७, ४५, वाध २६, १०, शेष
२८४, विध ५५, २०, आपशु
१२, २, वीथु १८ ३, हिथु
६, १७, -श्वः आपशु २०
१, वीथु २१ : ४, -श्या निसु
८, ३ १३, -श्याम् आमिष्ट
२, ७, ६ : ११, कुदे ५, १३४,

आज्यो १३, ११, -श्वोः हिथु
६, ४९; -श्यौ आपशु १८, ३,
हिथु ६, ७, ४५.

१पोडशप(शी-अ)न्त-
-न्तम् आमिष्ट २, ७, ६ : १३,
पोडश्या (शी-श्या)
दि- श्योऽन्त २, ५, ४१^०.

पोडशये (शी-ए)का-
दशो- श्यौ श्या २ ८, ६१
पोडश-भाग- ग आपशु
१८, ६, हिथु ६, १०.

पोडशा(श आ)शी स्तोम^०-
-म निसु ६, ११ : २

पोडशिक, का- -क वीथी
२६, २ : १०, वाथी ३, ३, ४,
४१, -का निसु २, १ : ३५, ४१

पोडशिकी- -की वाथी
३, १, १, २, २, १, २६

पोडश-ऊ^०- -क श्या ३, ३०^१,
-के अश ८, १०(४)

पोडश-करण^०- -ग वीथु १६
२१

पोडश-करणी- -वी काशु ३, ६
पोडश क(ला >)शु^०- -श
शाश्री १६, १४, १६, वीथी २४,
२१. १, वाधुश्री ४, ७२ ४,
-कम् वीथी १५, १२, १५,
वाधुश्री ४, ७२ ४, १००.

२० २२x४
पोडश गृहीत- तम् माथी ६
२, ५, २, वीथी १२, ६ ७४,
-तेव आपश्री १७, १४, १, हिथी
१२, ४, ११

पोडशगृहीत(त-अ)थं-
-थंम् काथी १८, ३, १२, -थंस्व
वेताथी २२, १४
पोडश-त(व >)वी- -व्य वीथी
१२, ८. २
पोडश-दारु^०- -रम् वीथी १४,
१ ३; हिथी ७, ४, ८
पोडश पल^०- -कम् वध २६६.
पोडश-प्रक्रमा(त-आ)पाम^०-
-म. वीथु ४ : १.
पोडश-राज- -र वीथी १६,
३३ : ६, -रम् आथी ११, २,
१४, आपश्री २३, २, ११, आप
१, ३३, ५, -त्रेण हिथी १८,
१, २०.
पोडशराज प्रभृति- वीथि
लाश्री १०, १, १०
पोडश(त-अ)थं^०- -वं शुभ २,
२४६, -थंम् कुदे ३, १२६, शुभ
३, १३५, अश ४, १५, १९, ६.
-थंम् अप ४६, १०, १३१^०
पोडश-थजंम् अप २ ८
पोडश वरी^०- -थंस्व पाण २, १,
३, माण १, १० १, वाण ९, १
पोडश-शाम^०- -मा लुध २
५ २३
पोडश-ली(ता >)त^०- -तम्
आपश्री १६, १९, १
१पोडशा(त-अ)थं^० > १ पर्य-
न्त^०- -न्ता श्या १७ ४४
पोडशाश्वर मर्षा(दा >)थं^०-
-थंम् माथि ६, ४.
२पोडशा(श अ)सर, श^०- -र
लाश्री ६, १०, १०, अप ३४, १,
४, श्या १८, ५४, निसु १ ५^०

a) वैप १ द. । b) पाप्ने वैप १ पोडशु वै ४, १२, १ डि द । c) विप, नाप (इहवा प्रय) ।
d) वाधो योगे व अर्थे डि. । e) उत्तरेण प्रख्यात्मानरुजान्दस । f) मलो कस उप वद. । वृ ५६३ आशी. स्तोम.
इति मेष्टम् । g) परिमाले कम् प्र. । h) वस । i) वस उप. = २५ल. । j) कस > वस । k) विप, नाप ।
l) तद्विवाये दित. प्र. लुक (वा ५, ३, ८९) । m) नाप । वस ।

१२, -रा ऋषा १७, ४५,
 -राम वाचुथी ४, १००^३: ४,
 -रेण^३ वाथी १०, ८, ११, १३, ८
 पोटशाक्षर-वा- वाया:
 निम् १, १: १८
 पोटशा(श-अ)ङ्गुल- नम्
 वीथी २, ६, २९, वैथी ११, ८:
 १५, अप २३, १०, १, विष ११,
 २, काशु ७, ११.
 पोटशा(अ-अ)ङ्गुलि-विस्ता-
 (र>)स- नाम् वैथी १, २
 १३
 पोटशा(श-अ)न्वित- नम्
 आच्यो ७, २१.
 पोटशा(श-अ)रति-मात्र- न
 अप १८, ३, ५
 पोटशा(श-अ)ह- हे वैथु ६,
 २ २.
 पोटशाहिक^३- नै निम् ९,
 ०. ७
 पोट(र^३)शित्(व्या.)^३- शि^३
 निम् ८, ८. ३३, -ति^३निम्
 आथी ६, ३, २३, वैताथी २५,
 १४, -शिन आथी ५, १०,
 २३, लाथी ८, ७, ४, ९, १, १०,
 १५ ३, ४, वाथी, -शित्मा^३थी
 १५, ५, १, वाथी १२, ५, २,
 १४, ३, १, आपथी, निम् ८,
 १० २७^३, -शित्ना आथी
 ८, २, ४, २४, आपथी, -शित्ति
 वाथी ५ ३, ३, १३, १, वाथी
 १४, ४२, ५, वाथी, -शित्ति वाथी
 ९, ५, १, वीथी ११, ३ २९^३,

२७^३, ६ ८x५, -शी आथी
 ६, २, ११^३, ११, १^३, ८, ४, २०^३,
 ९, ९, ९, ११, ५, ३, वाथी, माथी
 ६, २, २, १^३, वैथु १, १. १०^३,
 गौष ८, १८^३
 पोटशि-अह- नम् वाथी ९,
 ५, १, जैथी १५: १०, द्राथी
 ७, १, १, लाथी ३, १, १, -हम्प
 वैताथी २५, १४, -हणाम् वीथी
 २३, १९ ३६
 पोटशि चमस- न्नाम्
 आपथी १४, ३, ८, हिथी १३,
 २, २८, -लेषु माथी २, ५, ३,
 ५, -सै वाथी ३, १, २, ३४,
 वैथी १७, ४ २, १६ ८
 पोटशि-वर्ण- नम् वाथी
 १२, ५, २३
 पोटशि इताम^३- न्मा वाथी
 २४ ३, ३
 पोटशि देवता-> व-
 (व>)वा- त्या शुअ १,
 ५२५^३
 पोटशि धर्म- मात् निम्
 ७, १३ ७
 पोटशि पात्र- नम् आथी
 ६, ३, १९, आपथी १२, ०, ६,
 १८ १, १५, वीथी, वाथी ३, १,
 १, १४^३, -नेण वाथी ७, ३,
 २४, हिथी १३, १, १६
 पोटशिपात्र-वत् आपथी
 १८, १, १६
 पोटशिपात्र तट्ठ-
 -क्षाणि वैथी १७, ९ १

पोटशि-प्रभृति- न्य निम्
 ९८ ५, -वि निम् ३, ७ ४,
 ६, -ती वाथी ८, ३, ७
 पोटशि-मत्- न्म वाथी
 १०, २, १९, आपथी २३,
 ७, ३, वीथी, -मत लाथी
 ६, ९, १, -मति लाथी ९,
 ५, २३, -मन्त आपथी २२
 १८, ५, हिथी १७, ७, २, -मन्ति
 शुम् ३, २ १६, -मन्तो शुम्
 २, १५: १८, निम् २, १२: ७,
 १०, ५: १९, २२, २३, -मान्
 आपथी २२, ११, १७, हिथी
 १७, ५, ९, द्राथी ८, १, ७, लाथी
 ४, ५, ७x५, निम्.
 पोटशिमाती- ती निम्
 ८, १३ ५, २, १. १७
 पोटशि-नात्रिपर्याय^३- न्मेव
 वीथी २९, २ ९.
 पोटशि-वत् आपथी १८, १,
 ४, २, ४x५, वैथी १७, ७: २
 पोटशि वत्- वताम् वीथी
 २३, १३ २२
 पोटशि-वर्णम् वाथी ६, १,
 १, २, वाथी २, १, १, १
 पोटशि-वामपेय- न्यवो
 वीथी २४, ४ १०
 पोटशि-स(स्या>)स्य^३-
 न्यम् निम् ७, ८ १५, -स्येन
 निम् २ १२. १२
 पोटशि-सामन्- न्म लाथी
 १०, २, २, शुम् २. १५ २६x५,
 निम् ५. ७ ११^३, -गनी

a) समाहारे दिन । b) निर्गुलां उर प्र उले (वा ५, १, ८४) । c) वाथी पाठ । d) विव, माप । वैर १ द्र । e) = साम-विशेष । f) न इति मू । g) = १२४- । तले-व्यात् । ऋतु- (तु भाष्यम्) । h) = सोमसरय-विशेष- । i) फले वैव १ पोटशु तं ४, ३, १३, १ टि द । j) = पोटशि पर- । k) वस । l) णीदे इति पाठ ३ यति. शोष (तु भाष्यम्) । m) न्यग्राम् इति पाठ ३ यति शोष । n) द्रव (तु मत्र वीथी २२, १९. ४, ५) । o) णीदे इति पाठ ३ यति शोष ।

सकारो(र-उ)इव^० - ययोः क्रमा
 ४, १०.
 सकारो(र-उ)पजन- न क्रमा
 ११, ९.
 सकारो(र-उ)पनिम^० - भान्
 क्रमा १४, १९.
 सकारो(र-उ)पसृष्ट- ष्टम् निम्
 २, ९: ७; ९
 सकारो(र-ऊ)ध्वं- ध्वं मादि
 ८३.
 स ऋषकार-पर- रे तैत्रा ८, २६.
 स-ग्रहण- णम् पावा ८, २, २३
 स ध-न- न्ना अथा ३, २, १०
 स-भाउ- ष पावा ५, ३, २३
 स-लोप- न पा ३, १, ११, ७,
 २, ७९, पावा ३, १, ११, ७, ३,
 ११९, -वे पात्रा १, १, १८
 स-ज- न्नी तैत्रि २२१
 स प-कार-पर- न तैत्रा ५, ३०
 स-सङ्ग- लुपो पा ८, २, ६६
 ३सा(त म)स्त^० > ०-त-प्रदशा(ण-
 आ)नर्धक- क्यम् पावा ८, ३,
 ८५
 सान्-न-इत्- इत् पा ६, ४,
 १०, पावा ६, १, १३
 रेस^०
 धस^० स पा ६, ३, ७८
 संयच्छ, यम्^०, सवच्छति आपथी
 १, ३, १२, सवच्छेत् वैथी १,
 ६-१६.
 संयस अथ ४, ३१
 सयस्यते वा १४, ६
 सै-यत- न् वा ४४८, कौशि २२,
 -तम् अथ १०, ४१.

संयत-रदिम^० - दिम वा ५, ८.
 संयत-वाच्^० - वाह् वाच ७, ७.
 संयते(त-ह)ग्निद्वय^० - यः अण
 ६८, ३, ६, वैष २, ८, ७.
 संयम- पा ३, ३, ६३.
 संयमव-> न-कर्मन्- मां वा
 १०, ९.
 सयमनी^० - नोय् अण ४, ३, ५
 स-यम्य वैथी ९, ३: ६, आशिष्ट,
 हिण् २, ६, १०६.
 सं-याम- पा ३, ३, ६३.
 संयज्, सयज्ने वा १३, १३१,
 ऋसेपत्रामि^० आपथी ३, १०, १,
 वीथी १, २० २०, माथी ३,
 ९, ६, वाथी १, ३, ७, १४, द्विथी
 २, ५, २९, सम्-यजस्य वीथी
 ७, ६ २२१, सयजेयातम् शार्थी
 १४, २९, २, ३९, ७
 सयाजवति माथी ७, २२, ६, ८,
 १०, ३, माथी, सयाजवन्ति
 आपथी ३, ६, ६, ८, १०×४,
 वीथी ४, १०: १५, माथी,
 सयाजयेत् आपथी १०, २१,
 १४, १५, वीथी २०, १५ २,
 ३, ३१. ४
 सं-यात- न्क्य माथी २, ४, ४, २७,
 -ने वीथी २०, १५ १, ३१
 ३
 स याजयत्- न्य आपथी ९, १४,
 ३, वैथी २० २९ १०, द्विथी
 स याजयिष्यत्- ष्यत् माथी ९,
 १६, ९, -यन्त. आपथी ३,
 ८, २, माथी ३, ७, ३, वैथी
 सं-यात्य वीथी ५ ९ १२×४.

स पा(उध>)न्या^० - न्ये आथी
 २, १, २१, २६, ३०×४; वाथी.
 सम्-इष्ट-> ष्ट वज्ज्^० - लु
 शार्थी ४, ११, २, काथी ३, ९, ४;
 आपथी, -हृम्य माथी १, ७,
 ४, ३२, ८, ६, १०×४,
 वैताथी २३, १९, -लुप काथी
 ७, ३, २५, २५, ५, १६, आपथी;
 -लुपा वाथी ४, १३, ४, आपथी
 ३, १३, ४, माथी, -लुपान्
 वीथी २०, ३१: १६, वाथी
 ४, ८५ १४, -लुपि वीथी ३,
 २६-१०, माथी ४, १९, ८, माथी;
 -लुपो माथी १, ७, २, २०, वैथी
 १२, ७, ८, -लु लु शार्थी ८, ९, ९;
 द्विथी १०, ५, १९, -लुपि शार्थी
 १८, २४, ११, माथी ५, २, ९;
 ५, २७×४, आपथी
 १सनिष्टवज्ज्-अण- न्ते
 काथी २०, ६, ९, २५, १०, १८.
 २सनिष्टवज्ज् अ-त^० - न्तम्
 काथी ५, ६, ४
 सनिष्टवज्ज्-वर्जम् काथी ७, २,
 २६.
 सनिष्टवज्ज्-लुत्- तम् वाथी
 ४, १३, ८
 सम्-इष्टि^० - ष्टी वीथी २७, १:
 १९१
 संयत्, सयते वा ७, २२, २३,
 सम्(सते) क्रम २, ५, ३७
 स-यन्ते वा ४, १३१,
 सयतध्वम् आपथी ६, ८, १११;
 सयतन्त शार्थी १४, २१, १;
 ३२, १, ३८, १

a) वस । b) उप = सयस्य । c) वैष ३, ८५२ p ८ । d) <सह । e) पा १,
 ३, ५५, ७५ पराशुष्ट द । f) वै १ द । g) सपा आशिष्ट २, २, ५ १७ सयस्य इत् पावे ।
 h) पावे वैष १ सङ्खेति वा २, ५, ३ टि द । i) = [सोनिष्टवज्जो] य ज्यलुवापका इति भाष्यम् । j) उपा.
 ऋ ३, ८, ९ सुमाना. इति पावे ।

संवेतिरे वीथी १८, ४६ : १,
४९ : १

संयत्- -त्ता: वीथी १६: १४, १२,
वाधुथी ४, ४३: १, ६३: १, ८०
१, आश्रिण २, ५, ५: ८, -सं
आपथी १४, १४, ५, १७, १४,
८, २२, १२, ११; वीथी १४,
१८: २, वीथी २०, ७: ८;
हिथी १०, ७, ६.

सन्वत् माथी ५, १, ५, १४.

संयत्- -यत् आपथी १७, ७, ७;
२४, ९, वीथी, निप २, १७,
-यत्. आथी ६, २, ६, जाथी
२, ६, ६, वीथी १०, ३५. १२,
माथी

संयत्- एम् √इ द्र

संयत्- प्रथ. संयत्छ द्र.

संयत्- वाजो २, ३, ७४.

संयद् वसु- सम् √इ द्र

संयम- प्रथ संयच्छ द्र.

संयत्^८, सम्^९ यत्सु वा ६,
११†

संयत्, समयात् सु १८, १, समयाव
आपम १, ३, १४†

सन्वत्- नम् आश्रिण २, ४, ७.
८, -नस्य वीथी १४, १: २३,
-ने वाप १२, १७.

स्यत्नी^{१०}-नी वीथी १२, १०:
३०, -वीम् वीथी १०, ३८. २,
५, १३, १६, -नीम् जेथी ५,
-न्य माथी ६, १, ८, ९, -न्यी
आपथी १६, २४, ८, १७, १, ६,
१८×५, वीथी, माथी ६, २, २,
१०^{१०}, हिथी १२, १, ४^{१०}, ११

संयत्- प्रथ संयच्छ द्र

सन्वत्- संयच्छ द्र.

संयुज्, सयौति वाथी २, ५, १४.

२६, ३, १९, आपथी, पंसवीमि
आपथी १, २४, ५; वीथी १, ९.
१०; माथी, संवीयात् वीथी
१६, ४: १, २४, ३६. १५
संसम्... युवसे वीथी १३, ३५:
१८†, पंसंसम् (युवसे) माथी ५,
१, ५, २१; ६, ७, २, २१,
वैताथी.

समयावीत् वाधुथी ४, १०८:
२९.

सन्वत्- नम् मांत् १०, १, ५१,
-ने वीथी २०, ८: २१

सयवतन्त्र- -त्रेण हिथी ८,
१, ५६.

संयत्ना (न धर्ष) > धां-

-धांताम् गीत् ४, २, १५.

स यात्- वा ३, ३, २३, -वेन
आश्रिण २, १, १०१३, हिथ २,
२, ६

संयुज्- पाय ६, १, १५६.

स युत्, वा- -त ऋप २२, १, ५,
वैथि ७१, २६१, वाशि, -तम्
आपथी ६, ३०, २०†×५,
वीथी, वाप २६ १८, वैथि
८५, ३३८, वाशि १६, माशि ७,
४, वाशि २, ५७, ८७-९०, नाशि
२, १, ६, -ता माशि ४, १५,
-ता वैथि ६७, नाशि ११, ५,
वाशि २, ९६, -तात् वीथी १७,
१६. १, -तात् नाशि २, २, ९,
-तानात् माथी ८, १, २३, हिथी
५, १, १७, -तानि वीथी २६,
११ १५, -ते नाशि २, २,

११, -तेपु वीथी ८, ४: ८, -ती
वैथि ८४, ११९

संयुज् आपथी १, २४, ५, ८,
१३, १८, २९, २६, १, वीथी

सन्वत् वाप ३९, २, ७२, १, गोप
संयुज्, सयुज्यात् निव ५, ३,
२३, २७.

संयुज्यते निव ३, ८: १२, विव
५४, १, संयुज्यते ऋप १, ७, ३,
३, ९, १०, ऋषा १२, ३, सपु
ज्यस्व व्दे ५, ५५, सयुज्यते
आथी १, १, ८, दाथी १२, १,
१३.

सयुज्यति आपथी ६, २१, ८, २४,
११, १०, सम्^१ युज्यते सम्
(युज्यते) वैताथी ३६, २७†,
सम्^१ युज्यानि वीथ १, ५, २१^{१०},
हिथ १, २४, ४, सम् (युज्यानि)
वीथ १, ५, २१^{१०}, वैथ २, ८: ६,
हिथ, सयुज्यात् दाथी ६, १,
१६, ताथी २, १, ११

सयोज्यति वैथ ७, ८, ८, पंसो-
ज्यस्य माथ १, १९, ४, २, १५,
३१, सयोज्यते आश्रिण ३ १०,
१ १३, वीथि ३, ५, २, वीथि,
वीथु १० २७

स युज्, का- -त् काथ १, ११, माथ
१, १, ३, वाप ६, ४, ऋप, -नम्
वीथी २०, १७ २७, ताथी,
-नस्य माशि १०, ११, ११, ६,
वाशि २, २५, नाशि, -त्ता ऋप
२२, ३, २, -त्ता वाधुथी ४,
२६^{११} १९, निव १०, १० १०,
माशि ११, ४, १२, २, वाशि २,
३४, -त्तात् वाप २८, १८,

८) वैप १ द्र. १) = वयाम्- ८) वा ३, १, ७२ पराच्छ- द्र १) न्ये इति पाठ १ वनि
शोध (तु आपथी १७, १, १८) १) न्ये इति पाठ १ वनि शोध (तु उत्तर स्वल्प) १) नाप १
४) अत्रि इति पाठ १ वनि शोध (तु हिथ) १)

-कामि हिथी १, ६, ४०, निम्न
 ६,५ ११, -काम् अप ६८,५,
 २९, -काम् गीष २८, ४८,
 -के काश्री ३,४, १०, निम्न ४,
 ८, २३, ३८, आम्नि २,४,६
 ९, अप, -केषु वैश्री ११, ९.
 १०, -कौ काश्री २२, १०, २१,
 वीश्री २५ ९ ९
 सयुक्त-कल्प- -व्य वीम् ९२,
 ३२
 सयुक्त वर्म- -नां निम्न ६,५
 १९, ८, ७ १६
 स-युग्म- वाग ४, ४ ९९, -गे
 निव २ १०
 सापुरीन- पा ४, ४, ९९
 स युक्त- युषे वाग ८, ४
 स युक्त शशी १, १६, ७, वीश्री
 स-युग्ममान- ने हिथी ३, ८, ४३,
 ४७
 स-योग- वाग ५, १, १०-१, -ग.
 काश्री १०, ६, १०, ४५ ४७
 २, ८, ४८, ११५^{११}, ६४, ३,
 ६, शय क्रमा १, ३७, १८
 ३८, युग १, ४८ पा, पावा १,
 १, ५, -गम् वैष १, ११, ३, १३,
 क्रमा ६, ३५ १८, ४०, चम्, १
 -गस्य क्रमा ५ ०६, माशि ११,
 ६, पादे ४, १०, पावा १ १, ५७,
 मीम्, -गा कज ३, ३, ८, माशि
 ११, २, -गाम् शशी १, १, ५,
 काश्री २५, ८, १८, वीष, -गाम्
 क्रमा १७, २३, -तानाम् क्रमा
 १४, ५८, -गे अप ६४, ३, ३,
 क्रमा ३३, शक्ति ३५, ७५, माशि,
 पा १, ४, ११, पावा ४, १३,

-गेन आपधी १८, ११, ४, दिवौ
 १३, ४, १६, या ६, ९, -गेषु
 अप ६८, १, ६
 सायो, यौगिक- पा ५,
 ९, १०१, -कानाम् वा १, २
 सयोग-नस्र () शय ५७, ४५६,
 मीम् ३, १, ७
 सयोग-नायक- -कम् माशि ११,
 ६, माशि २, २५, नाशि २ ३,
 १४.
 सयोग पर- रम् माशि ११,
 १, नाशि २, ६, १०
 सयोग विरु- ष्टा माशि २,
 ८१.
 सयोग-पूर्व- वम् तैषा २२,
 १४
 सयोग-पूर्व- -कनान्ता (न्त
 अ)साम्भ- -ता युग ४,
 १०९
 सयोग-पूर्व- -कम् मीम्
 ४, ३, ४, -स्वाग् मीम् ६, ९,
 ३८, १२ १, २३
 सयोग मन्त्र- -मन् वीष ४, ७
 सयोग रूप चोदना (ना-आ)
 रवा (व्या-अ)विशय- -प्याव
 मीम् २, ४ ९
 सयोग वत् मीम् ३ ४, २४
 सयोग-वश- -वर्तिन्- -तिनाम्
 माशि ११, ८
 सयोग विरोध- पाव मीम् ३,
 ६, १०
 सयोग-सहा- -शावाम् पावा
 १, १, ७
 सयोग-ग-आ-दि- -द्वय
 वा ६, १ ३, -दि तैषा २१, ४,

वीच १, ५६, ३, ०८, -दि
 क्रमा १, २५, ६, १४४, शय,
 -शो पा ८, २, २९
 सयोग-दि-लोप- -व पावा
 १, १, ७, ८, २, ६
 सयोग-दि-लोप- -वलीक-
 सव- -स्वाग् पावा ६, १, ६७
 सयोग-ग-आ-दि- -दि पा
 ६, ४, १६६, -दे क्रमा १४,
 ३३, पा ६, ४, ६८४४ पावा
 ६, १, ७०, ७, ४, १०, -दौ क्रमा
 २, २, ७, ११
 सयोग-ग-र-आ-व्य- -व्य
 वाशि २, ४२,
 सयोग-ग-अ-नुस्वार-पर-
 -नाशि क्रमा १, २९
 सयोग-ग-अ-व्य- -व्ये नाशि
 २, २ १७
 सयोग-ग-अ-व्य- -व्यस्य
 पा, पावा ८, २, २३
 सयोग-ग-अ-व्य- -व्ये पावा
 ६ १, ६७, ८, २, ६, -वस्य
 पावा ६, १, ६७, -वे पावा ८, २,
 ६, २३
 सयोग-ग-अ-व्य- -व्ये
 शिपु पावा १, १, ५८
 सयोग-ग-अ-व्य- -व्ये
 पावा ३, २, १०७
 सयोग-ग-अ-व्य- -व्ये मीम्
 ३, ४, १३
 सयोग-ग-अ-व्य- -व्ये
 पावा ७ ४, १०, -वां हुदे ७,
 १३६
 सयोग-ग-अ-व्य- -व्ये
 २०४, माशि ८, ७, वाशि २,

a) = संप्राम । उप अधिष्ठान क प्र कुलम् [पावा ३, ३, ५८ पा ७, ३, ५३ (वैपु [परे] दे पत.
 इति)] । b) भाप, नाप (सता- [क्रमा. प्रम्, पा.] । c) द्वा लस मडकम्पर एष प्रम् । d) उग्यपददि
 वृत्तिली उस (पा ७, ३, २०) । e) पत । f) वस ।

५२, नासि २,०,१६
 संयोगो(ग-म)विघात- -व.
 शीघ्र १,१०४
 सयोगो(ग-उ)सर- -रम् नासि
 १०,११, नासि २,५,३.
 संयोगो(ग-उ)पात- -लो पा
 ५,१,३८
 संयोगो(ग-उ)प(घा>)घ-
 प्रहण- -ग्म् धावा ७,४,१०.
 संयोगो(ग-उ)वधा-सला->
 *शा(जा-अ)प्येत्य द्विर्वचन स्या-
 निवद्भावप्रतिषेध- -धा
 पात्रा ५,८
 संयोग वैश ६,१ १८, कप्र
 संयुक्त- प्रवृत्त संयुक्त
 संयुक्त > संयोगप्र- -वन्त
 गाए २,१०,११
 संयुक्त संयुक्त
 संयोग- प्रवृत्त संयुक्त
 संयुक्त, सरस्वती सुध ८८:९
 संयुक्त, सरस्वती सुध (>
 सारक्ष-साराक्षस्य- पा)
 पात्र ५,१,१०८
 संयुक्त (> विव- ध) पात्र
 ५,१,८८
 संयुक्त > संयुक्त-> *क श्लाम-
 कल्प- -व अत्र ६३,५,१
 संयुक्त, म्, सरस्वती सुध ७६,
 २९ संयुक्तम् आश्री ५,

११,६०, १३, ००, ११, वीथी २,
 १६:३०, वाथी १, ४, ३, १६,
 हिथी ३, ३, ४०, संयुक्तम्
 हिथी २, ५, ४३, वाए १,
 ८, २, ४, ९, १३, आसि ३,
 ६, १:०४, वाए, शीघ्र २,
 ६, ०२, सरस्वती गाए १, ७
 १४
 संयुक्त- *वमा माथी २, ५४,
 ०४, दाथी ३, ३, १३, लाथी
 १०, ९, ५
 संयुक्त वीथी २५, १०:८, क्य.
 संयुक्त- गानि वीथी १४, २६
 संयुक्त संयुक्त- -व शीथी ९,
 ५, ११, आश्री २२, ६, ३, माथी
 ३, ८, ३, ३, हिथी, आपम १,
 ११, ४, वीथी १, ९, ३, -णा
 वीथी १०, ४८. ३०
 संयुक्त संयुक्त- *राट् शीथी
 ८ १०, ३, ९, ६, २१, -राट्
 वीथी ३, ५, ९
 संयुक्त- -वाट् गाए २, २१.
 २०
 संयुक्त (जम्) शीथी- *वै वैश २,
 ११ ०२
 संयुक्त- -व वीथी ३, ४, ३०
 संयुक्त- -व वीथी १, ८, १४ १०
 संयुक्त संयुक्त- वीथी १३, १०
 १०, हिथी २४, ३, ४, संयुक्त

* आपथी १०, ०, २
 संयुक्त (न>) शीथी- -वी भाए १,
 ५ ३, -वीथी आथी ८, १४,
 ४, आपम २, ८, ५, भाए १, ५:
 ४, हिथी १, २, १९, -व आपम
 २, ८, ६, आसि १, १, १ ५३,
 ५, १ ४०, भाए
 संयुक्त- वन्त आपथी १३,
 १, ९, १५, ८, १०, माथी १३,
 ८, १४, वीथी
 संयुक्त (घ>) धाट्- धाट्,
 धाट् जए १, २०:२१
 संयुक्त (र>) वीथी- -वीथी वीथी
 १, ३, ३८, -व वीथी १, ३,
 ३९
 संयुक्त संयुक्त- वीथी १, ६, ५,
 ८
 संयुक्त रिणन्ति वीथी २२,
 ६, ११, वीथी ८, ८, ११, संयुक्त
 रिणन्ति अप्राय ६, ९, संयुक्त
 वीथी ४, ९ १८, वीथी १०,
 १९ १० हिथी ४, ५, १०
 संयुक्त संयुक्त (ए>) आ- वे
 गा ९ ३१
 संयुक्त संयुक्त- आपथी २६,
 २२, ५, हिथी १६ ५, १५,
 संयुक्त या १, १६, संयुक्त
 आपथी २१ २२, ५, हिथी १६,
 ५, १०

a) वस । b) पाठे वैश १ संयोगप्रवृत्त टि ३ । c) नाप । मस । d) संयुक्त, संयुक्त->
 संयुक्तसुध- इति [वैश] भाण्डा पासि । e) सपा ऋ ३, २९, १३ सुमन्ते इति पाठे । f) सपा सरस्वती
 (काठ ४ १३ व) <> सुमन्तम् (मै १, ३, २९ च) इति पाठे । g) घृ २०२ वसुध- श्वपत्र अन्त (वप्र),
 वान् वेति श्रौव । h) = सुक विशेष- (श्री ४, २०-२१) । i) पाठे वैश १ सरस्वती मा ८, १६ टि ६ ।
 j) गवा गाए १, १४, १६ सरस्वती इति पाठे । k) सपा मा ८, २० सखट इति पाठे । l) म्यु पाठे व
 संयुक्त- -वन्त टि ६ । m) स्वाधिक अण् प्र । n) पन्थर पाठे । o) सपा ऋ १०, ८५, ४६
 प्रवृत्त सखाती इति पाठे । p) = वैश विशेष । q) पाठे वैश २, ३४, सुगधनीम् नाक १४, ९, ३, ३ टि ६ ।
 r) पन्थर पाठे । s) वप. वरुणि अण् प्र । t) सपा. वरुणन् (मै १, ३, १० च) <> वरुणन् (गा ३,
 ८, ३, २० च) इति पाठे । u) सपा. वैशथी ३०, १० संयुक्त अण् अण् इति पाठे ।

१सं०रु०धे०त्^१ आ०धौ २१, २२,
 ५; हि०धौ १६, ७, १७.
 सं०रु०ह- > ००-प्रजनन^२ - नस्य
 या ५, २.
 सं०रोध- > ला०धौ १०, ७, ११;
 -धात् नित् ४, १: ३५; ८, ४:
 ८; -धे नित् ४, ७: १०.
 सं०रु०ह, सम०... रोहवि बौधौ ९, ४:
 १४; १७: ११; १०, ८: ७.
 सं०रोपदिव्यत्वित् बौधौ १७, ४५: ६.
 सं०रोह- > हा^३, -हम्, -हाम वैताभौ
 २६, ११.
 १सं०रोहयत्- > न्वत्: वापधौ ४, ६,
 १; माधौ ४, ७, ४; हि०धौ ६, २, ९.
 सं०रु०पि (<र- >) > सं०रु०पि (>)
 वा- > ता नित् ६, २: ६.
 सं०रु०लक्ष्, सं०रु०क्षयन्ते बृदे १, १५.
 सं०रु०क्षयन्- > न्याय माध १, ११: ६.
 सं०रु०लाग् > सं०रु०(ग) > न्वा- न्ना:
 कप्र १, ६, १०.
 सं०रु०लन-वाग्- > नाक् शंष ३७७:
 १.
 सं०रु०लक्ष् > सं०रु०क्षि, वा- न्त:
 नित् ८, २: ८; १४; -त्तायाम्
 लाधौ ६, ६, १५.
 सं०रु०लप् > सं०रु०लिव- > ता: शंष
 २५१.
 सं०रु०लाप- > न्: बृदे १, ३६; ५२.
 सं०रु०लिष्, सं०रु०लेपेत् बौधौ २४, १८:
 १.
 सं०रु०लिष्य द्राधौ ११, १०; लाधौ

४, १, ९.
 सं०रु०लिप् > सं०रु०लिष्य काधौ १६, ३,
 २७.
 सं०रु०लिष्यमा (>) न्- न्वा- नाम् माधौ
 ६, १, २, ८.
 सं०रु०ली > सं०रु०लीयमान- न्म बौधौ
 २०, १९: ३१.
 सं०रु०लुप् (= > लुप्), सं०रु०लोपयते बौपि
 १, १७: २०^०; सं०रु०लोपयन्ते बौधौ
 १९, २: २८^१; सं०रु०लोपयेत् भाधौ
 २, १४, ८.
 सं०रु०लुप्य भाधौ २, २, २, १९.
 सं०रु०लुभ् (= > लुप्), सं०रु०लोभवन्ति
 आ०धौ १९, ११, १०; हि०धौ
 २३, २, १०; सं०रु०लोभयेत्^२ द्राधौ
 ६, ३, ५; लाधौ २, ११, २.
 सं०रु०लुब्ध- > न्वम् वा ६, ३.
 सं०रु०लोभवत्- > न्वत् हि०धौ ११: ८^०.
 सं०रु०लोभ्य वापधौ १६, ३, ७; १७,
 १२, ८; वैधौ.
 सं०रु०लोभ- > न्वम् आ०धौ १८,
 ११, ११; हि०धौ १३, ४, २८.
 सं०रु०लोह् > सं०रु०लोक- > सं-
 लोकिन्^३ - की गोष्ट ४, ७, १९^१.
 सं०रु०वत् पाग १, १, १७.
 १सं०रु०वत्- > न्वत्: वापधौ १६, १,
 ११; बौधौ १०, १३: २३; माधौ
 ६, १, ३, २८; वाधौ; निप २,
 १७^१; -वत्त्वात् ६, ८.
 सं०रु०वत्- > वी^४ - नवी माधौ ५,
 १, ५, २११^१.

सं०रु०वत्सर- > पाठ ३, ७२; पाग ४, २,
 ७३; -न्: आधौ १, ११, ७^१; ४,
 ८, १५; ८, १३, ३१××;
 शाधौ; वाधौ ३, १७: २४^१;
 आत् २, ४, १४^१; -न्म^५
 आधौ २, १२, ६; ३, ११, २;
 ४, २, १४××; शाधौ; वैशि
 १०६^१; -न्म^५ आधौ ३,
 ८, ४; -न्स्य शाधौ १४, २, १३;
 १५, ५, ११××; वापधौ; -रा:
 आधौ १२, ५, १३; १४; १६;
 शाधौ; -रायाम् वाधौ ४, ११९:
 ५; वा ११, ५; -राणि वाधौ १,
 ७, ५, ९; गौध १५, १४^१; -रात्
 आधौ ४, २, १४; ६, १०, २४;
 काधौ; पावा ४, ३, १६^१; -रात्
 संधौ १३, २७, १; २८, ५;
 आ०धौ; -राय शाधौ १६, १,
 १५; १०, ९; आ०धौ २०, २३,
 १२; २१, १५, ४^१; बौधौ;
 -रे शाधौ २, २, २; ८, २०,
 ११^१; १३, ११, ८××; काधौ;
 गौध ५, २९^१; -रेऽरे आधौ
 २, ४, १; काधौ ६, १, १; आ०धौ;
 -रेय माधौ ४, १२, २; बौधौ
 १०, ४८: २३^१; वाधौ; -रेय:
 कीट ३, १०, ११^१; काट २, १४,
 ८^१; कैट २, १२: ११; -रेऽ
 वापधौ ८, २२, १५; माधौ
 ८, २४, १४; लाधौ; -री:
 बौधौ १५, ३८: १५; -री बौधौ

a) व्रमशः संरु०धे०, संरु०धे० इति पाठौ ! मनि. गोषः (द्र. ८.) । b) वध. । c) कप. मे २.
 ८, ८ विभे. । d) = संरु०धय- । e) सद्र. संरु०लोपयते <> संरु०लोभवत् पृथि इति पाठे. । f) परस्परं पाठे. ।
 g) धा. एद्धनीकरो षेठारिति चाधौ. भाष्यम् । h) न संरु०लोकी इत्यस्य रूपाने दाष्ट ४, २, १४ मसंरु०लोकी इति
 पाठे. । i) नक इत्यपि पाठः (द्र. भाष्यम्) । j) दे १ द. । k) = संरु०मा- । l) पाठे. ४ २२६७ च द. ।
 m) कथित् वा. क्विति. । n) 'व्यस' इत्यत्र चत्वारस्य यकारः तादिकिकः । o) द्र. ५. । p) द्र. पाठा. पाणि. ।
 q) संरु०वत्से दुनः इत्यस्य रूपाने सद्र. कीट १, २, ६६ संरु०वत्सेर्वाक्लोभ्यः इति, आत् २, ८, ७ परिसंरु०वत्सेर्वाक्लोभ्यः
 इति, वीथ २, ३, ५७ संरु०वत्सेर्वाक्लोभ्यः इति च पाठे. ।

१५, ४ ९, ११, भाथी ८, २४,
 १०, द्विथी ५, ६, १३, लाथी
 १सवत्सरी^१-रीम् वाथी २,
 १, ७, १४
 सावत्सर- पा ४, ३, ७३, पावा
 ४, ३, १६, -र आथी ३, ८, ५,
 -रम् आथी ३, १४, २२, -रेणु
 माण २, १०, ७
 सावत्सर पुरोहित^२-पौ अथ
 २, १, ४.
 सावत्सरा(र-अ)धीव^३- न.
 विध ३, ७५
 सावत्सरक- पा ४, ३, ५०
 सावत्सरिक- पा ४, ३, ५०,
 -क द्विथी ३, ५, १२, -कम्
 निम् १०, ३, ४४, ४ १९,
 काण ६६, ६, अण, -कस्य लाथी
 १०, ५, ४, पाण २, १, १, माण,
 -काणाम् आथी २४, ४, ५,
 बीथी २४, ५ १०, लाथी १०
 ५, २०^३, निम् १०, ३ ३०,
 ५ ५, -काणि आथी २, १४,
 २, आथी ९, ३, १५, बीथी,
 वाथी १, ७, ५, ८^४, -कैय
 लाथी ८, २, १४, १०, १, ६,
 -कैणु गोण २, ८, १९, -कै वीण
 ३, ३, ४
 संवत्सर काम- म बीथी १६, १२
 ९^५, -माम् आथी ११, ६, १०^६
 सवत्सर-कृत- त्वात् विप ८९, ३
 सवत्सर-वृत्त- स बीथी १६,
 ३६ ८
 सवत्सर-गजा(त-क्षा)गत- सौ

वीथ २, ३, ५७^१
 सवत्सर गर्भ^२- भं बीथी २६,
 २० ६
 सवत्सर-गाथा- यथा आपथी २१,
 २०, ३, -था द्विथी १६, ६,
 ४०^३, -थाम् आथी २१, २०, १
 सवत्सर ग्रहण- गम् पावा ७, ३,
 १५
 संवत्सर-चारिन्- री सुध ५६
 सवत्सर जा(त>)या- पाण २, २,
 ३७^४
 सवत्सर सम- पा ५, ३, ५७, -मे
 बीथी २६, २६ ४
 सवत्सरतमी^५- म्थाम् बीथी
 २६, २७ २४, वाधुथी ३, १८
 ३, ४, बीम् ७२, ३१
 सवत्सर दी(क्षा>)व^६- क्ष वाथी
 २२, १, ४४
 सवत्सर दीक्षा- क्षा बीथी १७,
 २० २, २२ २
 संसवत्सर नामन्^७- मानि आपथी
 १९, १२, १५, द्विथी २३, २, २६
 सवत्सर दिचप^८- य. विप ९४,
 ११, १२
 सवत्सर-यरा(र्ष्य>)व्या^९- ष्यथी
 भाथी १०, ३, १०
 सवत्सर-पर्यागत- तेभ्य बीथ १,
 ३, ६६^१
 संसवत्सर प्रति(म>)मा- मा
 बीथी २५ १ १४
 सवत्सर प्रघात^{१०}- म् पा ४ २०.
 सवत्सर प्रवर्द्ध^{११}- र्द्धं हाथी ८, १, ४,
 लाथी ४, ५ ४, निम् ४ १२ ७

सवत्सर प्रवृत्ति- वीनि वाथी २४,
 ४, २.
 सवत्सर प्रयोग^{१२}- गे हाथी ३, ११,
 १६
 सवत्सर प्रवक्त^{१३}- व्दम् आथी
 १०, ५, ७
 सवत्सर प्रवात^{१४}- ता भाथी ५,
 १९, ८, -ताम् बीथी १, १९
 १५, -तै आपथी ५, २७, ११
 द्विथी ३६, ११.
 सवत्सर ब्राह्मण^{१५}- गम् निम् ३,
 ११ २६.
 सवत्सर भृत्- भृत् वीथ ७ १९,
 -भृत् वीथी १०, १२, २
 सवत्सर भृत्-> भृत्- तिन
 काथी १६, ६, ९
 सवत्सर-भगं- गे लाथी १०, १४, ४
 सवत्सर विपाक-> फिन्- कि
 अण ६८, २, ५८
 सवत्सर घत- तम् अथ ३९५^{१६}
 सवत्सर धाव्- ध्वम् आणित् ३, ३,
 १ ५, २ ११, -ध्व आणित्
 ३, ३, २ १५
 सवत्सर सत्य^{१७}- ताम् अण २, १,
 १६४
 सवत्सर-साव- रवत्स पा ७ १,
 १५
 सवत्सर-सज- ज्ञानि हाथी १३,
 १९, १८
 सवत्सर-सद्- सद् बीथी १४,
 १५ २२
 सवत्सर सम्राध्व^{१८}- ये अण ७०,
 ८, १

a) = कृत्-। b) पूष = उद्योतिर्विद् । लोदेत्यर्थे कृत् प्र । c) श्रीका इति पाठः इति शोधः ।
 d) = सवत्सर-वृत्त- (तु संसृष्टुं टि) । e) पूष = गवामयन (तु भाषाम्) । f) पाणि टु २४६९ गुम् ।
 g) घतः । h) तु पावम । i) वैप २, ३८ द । j) = इष्टया विरोधः । k) = गवामयन भेदः । उत वा
 यस वा । l) उप <प्र√वै। m) उप = प्रमादणः । n) सप सद्गुण्यति १७, १५ जस्य य इति पाणि ।
 o) उत (तु पद्गुण्यति) वा यत उप = संस्था- वा । f) उत वा यत वा ।

संवासर-संवद्- -ये निम् ७, ६ : १३.

संवासर-संवद्- -अम् वीथी १७, २७ : ६.

संवासर-संमिता, ता^०- -तः शाथी २३, १७, ३; आपथी २३, ७, ११;

-ताः आथी ११, ३, ६, १२; द्विथी १८, ३, ३; -तासु ताथी १०, ५, १; निम् १०, ३ : १६;

५, ७, १५; -ते काथी २४, ३, १५.

संवासर-संमिता-स्यात्^०- -अम् निम् १०, ४ : १७.

संवासर-सहस्र- -सम् विध ४३, २७

संवासर-सुखा- -अम् निम् १०, ११ : ११; -स्यायाः निम् १०, ११ : १६.

संवासर-स्व-अवह^०- -हः शाथी १६, २६, ४.

संवासर(र-आख्या)>र्य^०- -अयः आप ७०, ८, २.

संवासर(र-अ)स्यासम्^० लाथी ९, ८, १७.

संवासर(र-आ)देश- -ताय लाथी १०, ३, २०.

संवासर(र-अ)म्- -ते आथी ९, ३, ७; १०, ७, ११; वैताथी ३६, २५; ३७, २०; ३८, १७; विध २१, १२.

संवासर(र-अ)न्वद् (:)विध २२, ४०

संवासर(र आ)ति- -सिम् निम् ३, ११ : २८; ६, ६, ९; १०, ३ : २१.

संवासर(र-अ)भिप्रयोग- -तः निम् १०, ८ : २३; -ताः निम् १०, १३ : ८.

संवासर(र-अ)भिप्राय^०- -अः आपथ ४, ३.

संवासर(र-अ)म्यन्तर- -रे विध २१, २१.

संवासर(र-अ)र्व- -अम् शंघ ३९५.

संवासर(र-अ)वगव^०- -अम् वीथी १७, ५१ : १९; ५२ : १२; ५३ : १३.

संवासर(र-अ)वम्^०- -अम् आथी ८, १४, १; वीध १, १, ३.

संवासर(र-अ)वत्- -रा वाय ७, २२; -रेपु काथी १३, ४, ४.

संवासर(र-अ)वराध^०- -अम् विध २, ५, १४१.

संवासर(र-अ)स्मृति- -नी काथी २१, ३, १.

संवासर(र-आ)द्विता(त-अ)गिन- -नेः काथी १६, ६, ११.

संवासरौघ, पा- पा ५, १, ९२;

-कृणम् कीट ३, ५, ८; शाप ३, १०, ३; -कृणम् आपथी ८, ३, ४; वीथी ५, ४ : २२, ७, १४, २३;

१४, ५ : २७, ३० : २९; माथी.

संवासरौ(य>)पा- पा ५, १, ९२;

-नीया माथी १, ६, ४, २१;

वाथी १, ५, ५, ७; -याम् माथी १, ७, २, २१; -यायाः चाथ २ : १४.

संवासरौ(र-ई)सु- -स्योः काथी ५, ११, १६.

संवासरौ(र-ई)हका- -काः वीथी १९, ३ : ४०.

संवासरौ(र-ई)हका- -काः वीथी १९, ३ : ४०.

संवासरौ(र-ई)हका- -काः वीथी १९, ३ : ४०.

संवासरौ(र-ई)हका- -काः वीथी १९, ३ : ४०.

२४; गौपि २, ६, २३; मम् (वदधम्) वृदे ८, १७, १, समवदत् माण १, १०, १५, १; समवदत् अत्र २, १०, ५०; संवदेत् वीथी २५, २३ : ३; कीट ३, ११, ३८; वीट १, ७, २२; संवदेत् शाप ४, ११, ६; संवदेत् शाप ३, ६; आथी ३, ३, ९.

समूदे वृदे २, ८५; या ११, २५; समूदिरे अत्र २, १०, ८६; वृदे ४, १०५, ४; अत्र; समवादिपत् वाधूथी ४, ७५ : २०; ३२.

संवादेत् शाथी १७, १४, २.

सं-वदत्- -ने वीथी २०, २९ : १५; २१, २१ : २४.

सं-वाद- -दः आपथी १०, १२, १२, १; माथी १०, ७, १८; वीथी; -दम् द्विथी १६, १, ३६; आपथ २२, १९; आपथ; -दाः वीथी २५, ६ : ५; -वात् काथी १०, ५, ७; -दे द्विथी १६, १, ३६; वीथ २, २, ७९; नाथ ४१ : ७; -रेपु वृदे २, ८८.

संवाद-वयन- -अम् भाप २, २६ : १६.

संवाद-अवृत्ति- -ति काथी १२, २, १०; -विता द्विथी ७, ८, ५६; ९, ३, ४२.

संवाद-अवृत्ती(ति इ)हाम्- -नेन माथी २, ५, १, २६.

संवाद(र-आ)दि- -दि आपथी १८, ९, १४; -दिता वीथी १४, १८ : १०; १६, १३ : ५.

संवाद(र-अ)मितयन- -अम् विध १, १५, ४६.

संवाद(र-अ)मितयन- -अम् विध १, १५, ४६.

संवाद(र-अ)मितयन- -अम् विध १, १५, ४६.

संवाद(र-अ)मितयन- -अम् विध १, १५, ४६.

संवाद(र-अ)मितयन- -अम् विध १, १५, ४६.

संवाद(र-अ)मितयन- -अम् विध १, १५, ४६.

संवाद(र-अ)मितयन- -अम् विध १, १५, ४६.

संवाद(र-अ)मितयन- -अम् विध १, १५, ४६.

संवाद(र-अ)मितयन- -अम् विध १, १५, ४६.

संवाद(र-अ)मितयन- -अम् विध १, १५, ४६.

सं-वद्, संवदे माण २, २६ : १२; संवदेत् आथी २, ३, संवदेत् काथी २०, ७, १०; संवदन्ते काथी २०, ६, १८, संवदत् काथी ३, ६, १५; १०, ५, ९; आपथी, संवद्वम् आणिए ३, ११, ३ : १.

a) = विधुति-नेर-। b) वत्.। c) पृ २४०० k द.। d) वत्. < वाप(नि)व(अ)य(। सेपणे)। e) पृ २५० f द.। f) परस्परं पाठे.। g) परस्परं पाठे.।

सं-वादिद्-सा हिपि १४: ४.
 सं-वादिद्-(>सांवाद्य-पा.) पाग
 ५, १, १२४.
 सं-वाद्य गौघ २८, १८.
 १सम्-उद्य आपथी १२, ६, ८; माथी.
 सं-वदान्याम्^१ माथ ३, १३: ११.
 सं√वन् > सं-वन्^२ -ना^३ ऋष
 २, १०, १११; वृदे ३, ५६;
 शुभ २, २३३; -नम् पाठ १,
 ६, २; धामिष्ठ १, ५, ४: १;
 ४०^४; ४१; काठ २९, १९^५;
 यौष्ट १, ४, ४; ५^६; माथ १,
 १७: १४^७; माथ १, १४, १२^८;
 बाण १५, २२; हिण १, २०, ३;
 २४, ६^९; वृदे ४, ५३; ८, ३२;
 १७; -वाद् माथ १, १६: १६.
 सं-वनिद्-निनी ऋमिष्ठ १, ५,
 ४: ४१; यौष्ट १, ४, ५; माथ.
 सं√वप्, सं-वपति वाथी १६, ३, ३;
 आपथी १, २४, १; यौथी;
 सं-वपामि आपथी १, २४,
 १; काथीसं ४: ६; यौथी;
 सं-वपेद् आथी ३, १०, ९; यौथी
 २४, २६: ६.
 सं-वपन्-पन् आपथी १, २४, २;
 यौथी २४, २६: ६; यौथी.
 सं-वपन-नम् मीसु १०, १, ५२;
 -ने यौथी ३, २४: ७.
 सं-वपना(न-ना)दि-दि वाथी
 १५, १, १.
 सं-वाप-> १प-मन्त्र-मन्त्रैः वैध
 २, ५, ६.

सं-वापन-> वा(न-अ)न्-न्तम्
 वैष्ट ५, १४: ८.
 सम्-वस-सः यौथी २, १७: १;
 -से हिथी ९, ५, १४.
 सम्-उप्य यौथी २, १३: २२x; ;
 काठ १६, ५.
 सं-वर-> सं-वर्षं पा.) पाग ३, १,
 २७.
 सं-वरण-सं√वृ(आच्छादने) द्र.
 सं-वर्ग-सं√वृ द्र.
 सं√वर्ण, सं-वर्णन्ति निम् ९, १३:
 १; ३४.
 सं-वर्णय-यद् निम् ४, ४: ८.
 सं-वर्त-प्रय. सं√वृ द्र.
 सं√वल्लु^१ सं-वल्^२ -स्वा माथी
 १, ६, २, १७.
 सं√वस(निवासे), सं-वसने वापथी
 ४, २६: ३७; वा ४, २७; सं-
 सन्ति माथी १, ५, १, ३०;
 सं-वसाम^३ माथ १, १४, ६; २,
 ११, १७; सं-वसेय वाथ १२, ५;
 सं-वसेद् वाण ६, ७; वाथ २०,
 ४५; निप; सं-वसेयुः द्राथी
 १२, ४, २३; लाथी ४, ४, २२;
 सं-वसेय आपथी ५, १४, ५;
 यौथी २, १७: १२; हिथी ६,
 ५, १४.
 समुपिरे वापथी ३, ३९: १.
 सं-वसत्य आपथी ५, ७, १७;
 यौथी २, १५: ७१; माथी.
 सं-वसत्-सन्तः^४ आपथी ७, ५,
 १; माथी ७, ४, १; हिथी ४, १,

६२.
 सं-वसथ-पाठ ३, ११६.
 सं-वसन्-नम् वाण १५, २२^५.
 १सं-वसान-नी आपथं १, ३,
 १४^६.
 सं-वात्-पाग ५, १, १०१; -सः
 माथ १, ११: ४; यौथ ३, २,
 १६; ३, २३; -सम् वृदे ७, १४८.
 सं-वात्सिक-पा ५, १, १०१.
 सं√वस(आच्छादने), सं-वसन्त्याम्
 आपथी १४, २८, ४^७; हिथी १५,
 ७, १२^८; सं-वसेयाम^९ माथी
 ६, १, २५; वाथी २, १, २०.
 सं-वसत्यायाम^{१०} यौथी १०, ३:
 १३; यौथी १८, १: ३६.
 सं-वसा(न>)ना-नाः आपथी
 ४, १, १०^{११}; ७, १७, १^{१२}; यौथी
 ४, ६: ३६^{१३}; ११, ४: २०^{१४};
 माथी ४, २, २^{१५}; ७, १३, ४^{१६};
 हिथी १, २, ५^{१७}; ४, ५^{१८}; यौथी
 सं-वसु^{१९}-स्वः ऋष ७, १०१^{२०}.
 सं√वस्त्र(<वस्त्र-), सं-वस्त्रेत् पाठ
 १, १६^{२१}; सं-वस्त्रेत् माथ १,
 १, ५^{२२}.
 सं-वस्त्रण-गम् माथ १, २, १९.
 सं√वह्, सं-वहति वापथी ३, ६१: १८;
 ७६: १; सं-वहन्ति यौथी १८,
 ४९: १०; १८; तस्-वहन्तु
 वापथी २, २१: १.
 सं-वाहयेयुः^{२३} वैष्ट ३, १४: ३.
 सं-वाह्य आपथ १, ६, १; हिण १,
 २, २७.

a) सपा. यौष्ट २, ८, २९ सं-वस्त्रेत् इति पाठे. । b) उप. भाराचर्ये प्र. । c) = आदि-विशेष- ।
 d) सपा. सं-वपन् <> सं-वसन् इति पाठे. । e) उप. कर्त्तरि कृत्. । f) सं-वसानि इति शोधः (तु. इ. अ. टि.,
 सं-वसानि इति पाठे. ५) । g) पाठे. वैष १ तै ३, ५, १, १ टि. द. । h) पाठे. वैष १, सं-वसन्त्याम् पाठ
 ३५, ९ टि. द. । i) 'वसत्याम्' इति पाठः । यनि. शोधः (तु. आपथी.) । j) सपा. 'वसाम्' (मै २, ७,
 ३^१ च) <> 'सायाम्' (मा ११, ३०; ३१ प्रय. च) इति पाठे. । k) सपा. मै ४, २, १० सं-विशुन्तीः इति पाठे. ।
 l) वैष १ द. । m) परस्परं पाठे. । n) भा. अहमर्त्तने इतिः ।

स-वाद्यमान^० - > ना(न-अ)दि-
 दुग्^० - नाम् विव १, ४३
 सम्-उह्य माथौ १, ५, ५, १,
 १, ४, लाथौ ३, २, ११, छुम्
 सम्-उह्य- > शौथौ ६, १२,
 १००^०.
 समुह पुरीय^० - प काथौ १६,
 ५, ९, -ये काथौ १६, ५, १०
 सम् उह्यमान - न बाधुथौ २, २१
 ४, -नस्य छुम् ३, ११ ११,
 -ना जुम् ३, ११. १५.
 -नामाम् जुम् ३, १२: १४
 सम्-ऊवा, र्ह^०, ळह^० - > आथौ
 ८, ५, २५, १०, ३, २××, छुम्,
 -वम् आपथौ १८, १, १२^०,
 वौथौ ६, २४ २८, १२, ४
 ७, दाथौ, -वस्य छुम् ३, १०
 २, ११ १^०××, -वाव शथौ
 ११, १२, १२, १४, ३९, २××,
 दाथौ ८, १, ७, जाथी ४, ५, २२,
 -हे थाथौ १०, २, २, ३, ३, ४,
 ३××, दाथौ, -हेन शथौ १०,
 ८, २२, निम् ५, ६ ७, -वेपु
 वाथौ ३, २, २, १, २८.
 समुह त्रिकुम्^० - > उम् वाथौ
 १०, २, २१^०
 समुह रूप- वेग छुम् ३, १२
 २३
 समुह विकार- > नीम् १०, ५,
 ८०

समूहा, ह-३मा)न्य- -व्यम् निम्
 ८, ३ ३८, -व्ये निम् ३, ९
 ४६
 समूहा(ह अ)वच्छेद- > द निम्
 ८, १२ १४
 सं-वाद्- प्रवृ सं√वह् द्र
 स-वाप- , थन- सं√वह् द्र
 स वार- सं√र (वाच्छ देने) द
 सं√वाश्, सगासयेपु दाथौ ९, २,
 १, लाथौ ३, ६, १
 समवायधीताम् वा १२, २^०
 स-वाशिर्- > लावाशिर्- नम्
 वौथौ १६ ५ १४, वाथौ ३
 २, २, ३, -नेन काथौ १२, ३, १२,
 स-वाद्य वौ. १ १६, ५ १६
 सं वास- सं√वह् (निवासि) द
 सं वाह- पाग ४, २, ११६, ४,
 १०३
 सावाहिक, का- पा ४ २, ११६, ४,
 १०३
 सावाहिकी- पा ४, २, ११६
 स वाह्य प्रवृ सं√वह् द्र
 सं√विच्, सविरिक्त म्थ ८, १०^०
 सं√विज्, सम् विनेत आपथौ
 २, १६, ११^०, १५, १८, १०,
 माथौ ९, १९, ८, हिथौ १५ ४,
 ४१^०
 पुंसविषया^१ आपथौ २, १८, ९,
 १२, १०, २, वौथौ १, ५ ४,
 १३, १६ १२, माथौ

सं-वि√वा > सवि शव- -तानि वा
 १, १२
 सवि ज्ञान- > थन पद- -तानि वृदे
 ५, १५
 सविज्ञान मू- तम् वा ७,
 १३
 सवि ज्ञाप दाथौ ७, १, ८
 सं√विद् (ज्ञानि)^०, पुंसव (विद्)
 कौम् ६२, २२, ६८, २७
 पुंस-विद्^० - पाताग ३ ३, १०८^०,
 -विद्म पुंथौ २, ६, ९, वृदे ७,
 १४ ७, वा ११, २४^०
 स-वेदन- > सावेदन^० - नम् थप
 १, १४
 सं√विद् (तामे), सविन्दते आपम
 १, १५, ११^०
 रस विद्^० - विद् आपथौ २२,
 १, ८, हिथौ १७ १, ९
 पुंसवैद्य^० - थो वैताथौ ३६,
 २७, कौम् १८, २२.
 पुंस विदाल वा^० - न आथौ २, १९,
 २२, ५ १९, १, लाथौ ३, १८,
 १५^०, आपथौ १४, २, १३^०××,
 वौथौ ६, ३० ११, १७, ३
 २^०××, राधुथौ, हिथौ २, ७, २१^०,
 वैताथौ २५, १२^०, थामि ३, ८,
 २ ४५^०, वौथि १, १५ ५२^०,
 माथ १, १४, १६^०, कौम् १२४,
 ४^०, -ना वाथौ १, ४, ४, ४१,
 कौम् १, १६, १८, वाथ १ २४,

a) धा अङ्गमर्दने ङिति । b) वस > वस । c) रावा वा ५, ८, ५ दाथौ ८, ६, २२ आथौ ११, १४,
 १० समुह्य इति पामे । d) = [समुह्यपुरीय थिव.] स्यद्विल [उ विवापर.] । e) आथौ शौथौ पाठ ।
 f) या पाठ । g) विर (समुह्य) मवरान- । वस । h) 'उ त्रि' इति ज्ञान । i) भने इत्थ (वा ३,
 ३, ४४) । j) सार्वे णम् प्र (वा ५, ४, १५) । k) निरयेण इति भाष्यम् । l) पामे वैप १ सुविख्या मा १,
 २३ टि द । m) पाता १, २, २९ पराष्ट द । n) वैप १ द । o) तु पागम । p) सार्विक णम् प्र ।
 q) = सगम । रसाधिके प्वनि उभयपदद्वि । r) पामे वैप २, २७ पाठपाठु ठेवा २, ५ ८, २ टि द ।
 s) पामे, वैप १ सरराण मा ८, २६ टि द । t) रावा सविदाल. (वै १२, ५, १३ वैषा ६, ७, २ च) <>
 सविदाला (वा १२, ६३ प्रम् च) इति पामे ।

१०, आश्रित ३, ६, ३ २६^६,
 वीथि १, १२ : २^६, वीथ १०६,
 ७, -ना शीथी १५, ३, ७^६,
 आपथी ४, ४, ५, ६×४,
 वीथी, हिए २, १५, १०,
 -०ना^६ कौथ ३, ६, ९, शीथ
 ३, ११, १४, -ने आथथी ५,
 १५, ५, २२, २०, ७, वीथी,
 या ९, ४०, -नी आथी ४, २,
 ३, शीथी ३, १८, १४,
 वाथथी

स विद्घा > सवि हित- > ०-
 सतो(वे-उ)पकन- -ण शय
 २५३

सं-विद्धी, सविधीमहि काए ४३,
 १८^६.

सं विद्भज् > सवि भज- -भ
 शय २४४, -वी शय २४८
 सवि भजय वीथ २, १०, ५०,
 आपथ ४, ५

सवि भाग- -ग निम् १०, ५ १६,
 आपथ १, २३, ६, २, ९, १०,
 वीथ २, ३, १६, हिथ

स विद्भुम् > सवि भुम्- -भत
 काठथी १५

सं विद्भम् > सवि भम्- -भत्त
 निम् ७, १० ११

सं विद्भिन्, सविभानि शीथी १६, १,
 ७, काथी २०, १, १७, २२, ६,
 ४, वीथी, सम् विभानि वीथी
 ७, २ १८, सविभत काए
 ३०, २, ४, सविभान्ते शय ३७,

१, २^६, सविभान्ति वीथी १८,
 ५० : १८, जैथी ७ ११,
 आपथ, शीथ ४, १८, ६^६,
 पुंसविशामि^६ आपथी ६ २७,
 ५, हिथी ६, ७, ८, आपथ १, ८,
 २, काए २७, ३, नाए १५, १७,
 हिए १, २९, २, पुंसविशाम्^६
 आपथी १, १६, १२, वैथी ४, ३
 ८, हिथी १, ४, ५८, वैथ १, ११
 १३, पुंसविशान्तु वाथी १, २, २,
 १, आपथ १, ४, ९, शीथ २, ९, ५,
 आश्रित, पुंसम् विशान्तु वीथी
 ८, २० ८, वैथी १६, २५ ११,
 पुंसविशस्य आपथी ९, १, १७,
 १०, ३, ८, भाथी ९, १, १७×४,
 हिथी, पुंसविशामि^६ काथी २,
 ५, १७, वीथ १, ५, ६, सविशेत्
 आपथी १५, २०, २१, वीथी
 ९, १९ २३×४, भाथी,
 सविशेत् कौथ ४, ४, १०^६,
 सविशेत् दाथी ७, ४, ५, काथी
 ३, ४, ४, द्राथ ३, ३, २४,
 पुंसविशेत्^६ कौथ ३, ४, ३,
 शीथ ३, ५, २, सविशेत् काए
 ११, २^६.

सवेशयति कौथ ३९, १६, ७२
 ६, ८३, २९, सवेशयन्ति काए
 ४, २, १५, हिथि १ १६,
 सवेशयन्ते आश्रित २, ७, ६ १ २,
 वीथ ३, ४, २१, १४, शय
 स विशय- शम् आपथी ६, २७, ५,
 २२, ७, २४, द्राथ ४, ४, २,

आपथ १, ४, २४, वीथ, -शत
 माथी ६, २, ३, ८^६

स विद्- -ष्ट. शय २०, ३, १,
 आपथ १, ६, ५, हिथ १, ३, ३०,
 -ष्टम् आपथ १५, ५, -ष्टाम्
 भाए १, २५ ११

स-वेश- पाग ५, १, १० १^६, -व
 वीथी १४, ४ २३^६, -शम्
 आश्रित २, ७, ६ १५, -पुंसाय
 शीथी १३, ५, ४, काथी

सावेशिक- वा ५, १, १० १
 सवेश पति- तथे काथी २
 ४, १०^६

स वेश- पाग ५, १, १० १, १११,
 -पुंन^६ आपथी २ १, १७,
 भाथी ९, ७, १७, माथी ३, ४,
 १, हिथी १५, १, १८, आश्रित ३,
 ६, ३ १९, वीथि १, ११ १६,
 -शम् आश्रित २, ७, ६ २, वैथ
 १, २२ २५, आपथ २, १, १९

विथ, -ने कौथ ३, ९, ४१, काए ४,
 ७, ४, हिथि ९ १०^६, वैथ १,
 २२ ३०, -नेन वीथी २४,
 ३१ ४, -नेथु हिथि १ १६

सवेशनी- नीथ् शय
 ४, ३, ५

सावेशनिक- वा ५ १, १० १

सवेशन प्रतिशेष- -शाम्
 भाथी १०, ११, १३
 सवेशन यत्त- सु वीथी ६,
 ६ २७, ७ १९×४, -तुपि वीथी
 २१, १-४

a) पामे घृ २४७३ टि इ । b) सपा वी ७, १, १ वै २०, १, १ बाहृपाला दति पामे । c) सपा
 आगम २, २०, ३५ विमि । d) पामे वैप १ सुभागा तै ३, ९, १ टि इ । e) वैप १ इ । f) सपा
 सविशान्ति <> सविशेत् इति पामे । g) सपा सविशामि <> सविशानि <> सविशेत् इति पामे ।
 h) पामे वैप १ सुतोदन्त्याम् वै १, १, ४ टि इ । i) पामे वैप १ सवुसन्त तै ३, ५, १, १ टि इ । j) घृ
 पागम । k) =सपा. वाठ ३५ १७ तैवा ३, ७, १, ४ तैवा ६, ३, १, ४, २ । म १०, ५६, १ वी १८, ३, ७ इ सवुसन्ते
 इति पामे ।

सवेदान रूप- नाभि बौधो २६,
 १३ ८
 सवेदान वेदा- हायाम् गोष्ट
 ४,१,१६
 सवेदान(न आ)दि- दि आपष्ट
 १९,१२, हिमि ५ ११
 सवेदान(न-अ)-न्त-न्तम् काष्ट
 ६०,८
 सवेदानीय,या- पा ५ १,
 १११, -वा बौधो २६, १३
 ७,१८ १६x
 सवेदिद- (>सवेदि- पा)
 पाग ५,१,१२४
 स वेदि आशिष्ट ३,५, २ ५, वैष्ट
 ६३ ३, वीष्ट १,६,२२, वीष्ट
 सविष्ट > स वेष्ट (>सावधिक-
 पा) पाग ५,१ १०१
 सविष्ट- संविष्ट द
 सविहित- सविष्टा द
 सवी(विष्ट)ष्ट, सवीष्टये अष्ट
 ७०^१ ९,१
 सवीत- श्विष्ट- सविष्टे द
 सविष्ट (आच्छादने), सविष्टवित्त
 आपथी १५, ५ १, भाषी ११,
 ५ १, वैष्टी, सविष्ट आशिष्ट २,
 ६ ८ ४०^१
 सविष्टीरम् विष्ट ७१ ४
 सविष्ट- अ^० अष्ट २, ५ ३३
 शुम् १, ९१८, -गम् अष्टा ६
 १७, -वे विष्ट १, २३ ११,
 अष्ट ४, ७ ८
 साविक- न अष्ट २ ९
 १०१, साव १, ५४८

सवरण देव- अे वीष्ट २ ८, २९
 सवत- २ आशि ८, ७
 सवार विचार- री आशि ८ ८
 सवृत्ता- न्त वीष्ट ५ ४३^०,
 वीष्ट १, ३६, आशि ३ ११,
 -तम् श्विष्ट ४७, ३४२, माशि ६,
 ८, ९, माशि, -ता वाशि २, ९४
 -गाम् नाशि २ ६, ८, -वे वीष्ट
 २, ३, २१, विष्ट ८१, ५, अष्टा
 १३, १, तैष्टा २, ४, -तेन अष्टा
 १५ १६
 सवृत्त कष्ट- ष्टा आशि ४, ४
 सवृत्त करण-तर- रम् तैष्टा
 २, २७
 सवृत्त वा- न्ता आशि ८ ५
 सवृत्त-त्व- त्वम् आशि ८ १५,
 -त्वात् आशि ८, ७
 सवृत्त निवृत्त्य(ति-अ)यं- य
 पायवा १, ३
 सवृत्त-स्थान- गम् श्विष्ट २४८
 सवृत्ता(त-आ)दि- रीनाम्
 पायवा १८
 सं वृष्ट आपथी १३ ९, २, २१,
 १२, ६, माथी
 सं वृष्ट, सवृष्टके वाधू-री २, १७
 १५, २३, समवृष्टत वाधूथी
 ३ १७ १५, ४ १०० २०,
 २१x, संवृष्टीमहि वाधूथी
 ३ १७ १०
 सवर्षा- र्ग्य भाषी ३, १३, ७,
 भाषी ३ ४, ५ वाधो २५ ४,
 ३२, आपथी १९ २५, १,
 वाधोस ३२ ४, वीष्टी १३,

३५ १२, हिथी २२ ५, २२
 सवर्षा निवृ- > सावर्षावित्त-
 ता भाषी ८, ३, ३७, लाथी
 ४, ७, १५^{१६}, निवृ ५, १० १२
 सवर्षा(र्ग-आ)वृत्ति- न्ती वीष्टी
 १५, १८. १४, ३२ ३, ३१
 १०
 सं वृष्ट- वृष्ट वाधो २६ ७,
 ५६, सुवृष्ट १११
 सं वृष्टवावृत्त अष्टाव २, ७
 सं वृष्ट, सवर्षते आपथी ८, २, ६,
 सवर्षते आपथी २१, १९, ६,
 वीष्टी १६, २२ ७, हिथी,
 स(स)वर्षते आपथ २, ११
 २०, हिष्ट २, ४, ३५ सवर्षताम्
 पाष्ट १, ५^{१०}, संसवर्षते आपथी
 २, १७, १५ ३ ८, १, आपथी
 सवर्षते वीष्टी २६, ७ २३,
 वीष्टी १६, १८ १८ समवर्ष-
 यत् हिथी ८ ४ २७^१
 सवर्ष- सं अष्ट २ १०, १७२,
 शाव १, ४४३, ४५२, -तम्
 अष्ट ११६ ४०^१, -वैष्ट वाव
 ३० ६ ३८ १७
 सवर्ष- तम् लाथी ७,
 १, १
 सवर्ष वाव- न्त माष्ट २, १०
 ६, हिष्ट १, १६ ११
 सवर्षान- न्नेष्ट वीष्ट ३३, १८
 सवर्षय- न्त वाव ४० ४,
 -यत् अष्ट ७, ६१
 सं वृष्ट आपथ १९, ७, २०, ७
 सं वृष्ट वा ५, ४

a) अष्ट । b) प्रयत्न विशेष । c) विष्ट, वाव (b दि द । वीष्ट आशि प्रष्ट) ।
 d) = वृष्टापत्त, वरिष्ट- । e) वस । f) वैष्ट १६ । g) अष्टवे इति पाठ ? यति वीष्ट
 (वृ भाषी निवृ) । h) एषा सवर्षे इति पाठे । i) = स्पृष्टि तत्- । j) = सवर्ष विशेष ।
 k) पूर = वायु विशेष । l) पाठ (वृ विष्ट) । सवृष्ट इति ड, स वृष्ट इति (१६ अष्ट, भट्टकमर
 का अष्ट १, १०, ११) य ।

सं/वृष्, संवर्षताम् वीथी १,१०,
२४; शांश १, १७, ९; आश्रित
१,५,५:१६.

सं/वृ, वृष्ट्यु > सं वृष्ट्यु आपथी ९,
२०, १; २०, २५, १४^b; वीथी २०,
३९: ३; द्विथी १४, ६, २५^b.
संवर्षम् वीथी १६, १५, ११;
काथी २१, २, ६.

सं-वेदन- सं/विद्(ज्ञाने) द.
सं-वेश- प्रथ. सं/विश्व द.
सं-वेप- सं/विष्व द.
सं/वेष्ट, संवेष्टयति आश्रित ३, १०,
५: ५.

सं वेदित- सम् गोष्ट २, १, १९.
सं वेष्टय काथी १५, ५, १३; आश्रित
७, १७, ६४४; वीथी.

सं/व्यच्, सम्...विष्वाच श्वा ४,
८३१.

सं-व्य(वि-अ)व/ह > संव्यव हार-
न: आपथ १, २१, ५; वीथ २,
२, ४२; द्विथ १, ६, ३५.

सं-व्या(वि-आ)/स्या > संव्या-
स्यायत्- स्यन् वीथी १४,
११: ३२.

सं-व्याड- पाथ २, १, ४०.

सं-व्यू(वि/क)ह > संव्यू(वि-क)ह
निम् ७, ११: ३१; १०, ४: ४.

सं/व्ये, संव्ययन्ताम् वीथी २१, १५:
१३^b; आपथं २, १९, ४^b; वापथ,
९; १६, १; संव्ययन्तु आपथं
२, २, ५; आश्रित १, १, २:
२६; ५, १: २०; वाप २५,
४; वीथ २, ५, ११; माष्ट १, ५:
१३; १३: ३; भाष्ट १, १०, ६;

२३, ३; द्विथ १, ४, २; ज्यु १,
२०: १५; संव्ययस्य वीथी
१०, ४: ८; वाप १, ४, १३^१.

समव्यव या ४, ११.
सं-वोत, वा- पाथ २, १, ४०; -स्य
आपथ १, १९, १०; वीथ १८,
१८; -ताम् वाप १३, १.

सं-वोतिन्- वी वीथ २, ५, १.
सं-व्य(त) > वी- वी आश्रित
३, ५, ६: ८; वीथ १, ४: २४.

सं/व्यञ् > सं-व्यञ्- व्यञ् काथी
४, १५, ३१.

सं/शंस, शास्, संशंसति शौथी १०,
१३, १०^१; १५; ११, १२, ८;
संशंसित् शौथी १६, ७, १३; १४, २
संशस्येत् शौथी १७, ९, ६.

सं-शसा- > संशसिक- स्य
वैताथी २५, ८.

सं-शस्य' शौथी ११, २, १३.

संशकला' (> क्वा/ह)

सं/शष्ट् > सं-शष्ट्- शष्ट् अर्ष: १;
५.

सं/शम्, समशमयन्, संशमनेमदि
काथी १४, ११, १.

सं-शान्त, न्वा- न्तम् वापथी ४,
२८^१: ५; -न्ता वापथी ४, २८^१:
७; -न्ताम् वापथी ४, २८^१: ६

सं-शर- सं/शू (हितावाप) द.
सं-शान- सं/शौ द.

सं/शास्, संशास्ति आपथी १०, १८,
५; १६, १५, ६^१; २१, १९.
१४^१; वीथी; संशास्ति वीथी २,
१५: २; वापथी २, १: १; सं
शास्ति सु ३०, २.

संशित्वाधि वीथी ६, ५: ५;
माथी ६, १, ८, १०; वाथी २, १,
८, ७.

संशसात् वापथी ३, ८८: १७;
संशस्यत् वापथी ३, १२: ७;
आपथ ३, १२, २०.

सं-शासन- नम् वापथी ३, ७०:
२; -नात् माथी २, १, ३, ३१.

सं-शिए- श: वीथी १२, १२: १५;
१५, ५: २७; वापथी ४, १०^४:
६; -था: वीथी १५, १६: ६.

सं-शित्य- स्यम् वीथी २, १५:
२^१; वापथी २, १: १; २; ६: २.

सं/शिष्ञ्, संशिक्षयति आथी २,
१३, ६; माथी २, १३, ५; द्विथी
२, १, १२.

१-२ सं-शित- प्रथ. सं/शौ द.
सं-शित्वापि- सं/शू(हितावाप) द.

सं-शिक्षान- प्रथ. सं/शौ द.

सं/शी, संशयीत् आपथी ३, १५, ११^१.

सं-शय- पाथ ३ ३६०; -वा निम्
१०, ७: ८; कथ; -स्य आपथ ३,
१, ६; द्विथ २०: २; -वा: निम्
१०, ७: ११; -था संथ २९०;

विथ १०, ११४४; वैथ १, ११, १०;
शुप ५, ३४; -थे आथी १, ३, ५;
८, १२, ११; १०, ५, १८; विथ;
-थेपु निम् १०, ५: १८; ७:
१४; नाति १६, ३.

संशयिक- पा ५, १, ७३;
-क: या ७, ९; -कान्ताम् तनिष्
२: २२.

संशयिकी- वीथ २, ४४;
आपथ १, ३२, २७;

a) पाथे. इ २४७५ जं द. । b) सया. संवृष्ट्यु <> संवृष्ट्यु इति पाथे. । c) 'वृ इति पाठः ।
यति. शौथः (द. आपथी.) । d) सया. काठ ३५, १ संवृष्ट्यु इति पाथे. । e) सया. संव्ययन्ताम् (ते ३,
३, ११, ३ न) <> संव्ययन्तु (शी ७, १८, ३ न) इति पाथे. । f) सया. संव्ययन्ताम् <> संव्ययन्तु (शी १४,
१, ४५ न) <> संव्ययत् इति पाथे. । g) इ २३४८ C द. । h) इ २८६ p द. ।

हिष १,८,६८.
सत्रय करक-का. अप ६१,
१,११
सशय-छेदन-नाय दनि १,३
सत्रयो(य उ)व्यापन- > न
प्रश्न प्रतिपाद-व्यापनि श्रम
२,१,१६४

सं✓शुष्ट्, सशोषवेष्ट अप २१,४,४,
२४,२,१.

सं शुद्ध-द्वय वाधौ ३,३,२, ३०,
-वा वीध ४,७,२

स शोष वैधौ १,५ १x४, वैष्ट

स शोष-व्यापनि वैध ३,३,११

सं✓शुष्ट्, शुष्ट् (श्रवणे)^६, सश्रवसि गोष्ट
२,८,२१^७.

सश्रावयेष्ट वैधौ २५ ३.

श्रवस्-वसे वाधौ १२, ५,
३, वाधौ ३, २,७,२१, वैताधौ
३०,१८.

स श्राव- व वीधौ २३ १२

सं श्रु(श्)ङ्गी^८-ङ्गीम् गो १,६^९

सं✓श्रु(हिवायाम्), सम् शीघ्रेते

वीधौ ६, ८, ६, सशोषेय माधौ

१०,१२,९, वैधौ २० ३९ ६,

हिधौ १७, ७, २९ अश्रव

२,९, सम् शीघ्रेते आपधौ ९,

२०, ४, माधौ ११, १८, ११,

वाधुधौ २,२० ४

श्रवारी वीधौ १५,३१ २३,

आपम २ ७, २६, वाष्ट २ २१

६

स श्राव- र वाधौ २०,७,४

स श्रावशिष्टु-सु वा ६ ३१

स-शीघ्रेते वाधौ २३ ४.

२०, आपधौ २२,२१,४, -गाम्
आपधौ १०,१८,१०, वैधौ १२,
१४ ५, -वै वैध २,५,५

स-शीघ्रेते आष्ट ४,२,२२

सं✓शो, श्रुस शिसन्ति वाधौ २२,

६,१९, लाधौ ८,८,१३, वैताधौ

३०,१७^{१०}

श्रुसदयति आपधौ १५ १२,१३,

वीधौ १,११ ४x४, माधौ

स शान-नामि द्राधौ १३, ४,९

१५, लाधौ ५, ४, १६, वैताधौ

३०, १६, -ने वीधौ २०, ९

१^१

साशान-वामि वैधौ २५ ९

श्रुस-सन्ति-व वीधौ २, ८ ८,

-तम् आपधौ १६,१०,७, वीधौ

१०, १४ ६, वाधौ २, १,२,

२९, वैधौ १८ ७ २२, हिधौ

सशित मद्र^{१२}-व वाधुधौ ४,

१८ २१,३२, अप ७०^{१३},१,१,

-वा वाधुधौ ४,१८ २४,२८

२२ शित->साहित्यायान >

वी-वा) पाव ४ १,१८

स शिशान-वा वा १०,३०,३०^{१४}

स-सिद्धमल-वा वा १०,३०

सिद्धनानाम् वीधौ २० ९ २

सा(<सम्) शिस्य आपध १, २९,

८, हिष १,७,६५

सद्वत्-पाव २ ८५^{१५}, पाव ३ १,

११

✓सद्वत् पा ३ १,१२

सं✓श्रा>स श्रव अप १२,१,३

सं✓श्रि, सश्रवति वैताधौ १६, १२,

सश्रवन्ते वृदे १, ६०, सश्रवेष्ट

वीधौ २८ ११ १४

स श्रव-वा श्रावित् २, ५, ३

४८, वीष्ट ३,७,२९

स श्रित-व वाष्ट ५ ४, नाति १,

५, ७^{१६}, -तम् भाति ७७^{१७},

-वा वीष्ट १, १०, १२, वृदे

१,१०७

स श्रिव कौत् ८६,११

सं✓श्रिष्ट्, सश्रिवामदे वीध २,

६,२८^{१८}

सश्रवयेष्ट आपधौ २१,१,१०^{१९},

सश्रवयति हिधौ १६ १, ६^{२०},

सश्रवयेष्ट आपध २, १०, १२,

हिष २ ४,४९

श्रुस श्रिष्ट्-श्रिष्ट् आपधौ १६,३१,

१, वैधौ १८, २० ५५, हिधौ

११, ८, ४, -श्रिष्ट्, -श्रिष्ट्

श्रिष्ट् आपधौ १६, ३१, १, वैधौ

१८, २० ५६, हिधौ ११, ८, ४

स श्रिष्ट्-ष्टम् वाधौ १, ११, ५,

-ष्टम् वाधुधौ वे, २० : ६, ७,

-ष्टौ श्रुष्टा ४,१४८

स श्रिष्ट्-हिधौ ५,४,७२

स श्रवण-वामि आपधौ १५

१० ८, माधौ ११, १७, १०

सं✓सञ्, ससञ्चि वा ५,९^{२१}

सं✓सञ्ञ्, ससञ्चि वीधौ ९,

११ १४, वृदे ७,५१

स सञ्->पद-विन्यास-

-स कप ३ ९,५

ससञ्-मप^{२२}-व्यम् माधौ १,

८, १, १६, -व्यापि माधौ २,

३,१,१३

ससञ्-म^{२३}-स कप १,७,३.

a) पावा १,३,२९ परागुष्ट द । b) पागे वैप २,३६ मजा १, ५,१६ डि द । c) वृ २२५९ ०
द । d) वैप १ द । e) पन्ति इति पाठ २ वनि श्रोष (वृ पूर्वे स्थिते, ० प) । f) = साम विशेष ।
g) माग । h) वस । i) = अदि विशेष । j) सतापानाम् इति गोष इति शक्यता । k) स सं✓च
इति शक्य प्रवृ । l) स(सु>)ञ्✓धि । m) सस्थित इति लस । n) परस्पर पागे ।

संस्तवीय^१- न्य आप ३३,६,०
 स सह-ञम् वा ७,२३
 सं√सद्, पूंससीदन्ताम्^२ माथी १,
 १८, १, माथी १, २, १, १८,
 वाथी १,२,४,१०, पूंससीदन्त
 आथी ४,६,२, गाथी
 पूंससदद् आथी ४, ८, ४,
 गाथी ४, १२, ३, हिथी ६, २,
 ०
 ससादयति काथी २, ३, ६,
 आपथी १२,२,१५, १६, २१,
 २, वीथी, ससादयन्ति वीथी ६,
 २८ ५, ७, १३ ११××,
 वैथी, पूंससादयामि आपथी
 १२,२,१५, माथी २, ३,१,०१
 हिथी १, ७, ३४, पूंससादयन्तु
 आपथी १, १६, ८, माथी १,
 १८, ६, हिथी १, ४, ५४,
 ससादय वीथी ६, २४ ७^१,
 ३० ४××, ससादयेत् वीथी
 २४, २ २, ३४ ७, १४××,
 वीथ १,४,४५
 ससद्- सत् गाथी १७, १३,
 १०^१, -तत्सु^१ निम् ९, १२
 १०, २१, १०,३ १५, -सद्^१
 वाथी २४, २, १४, हाथा ४,
 ८५^१, -सद् हिथी ७, ५,
 ११^१, सु ३०, ५, ६, आथ २,
 ६, ११, -सद् आपथी २३, ४,
 १^१, वीथी १४, १९ २६^१, हिथी
 १८, २, १^१, आपथ, -पूंसदि
 वीथी १७, ४० २ आपथ २,
 ७१ आथिष्ट १ ३, २ ९,
 भाथ २ १८ १२, हिथ १

१,४, -सद्भ्य^१ निम् ९, १२
 २०
 ससदन-> नीय- न्य आपथी
 १३, १६, ८^१
 ससदाम् वयन- नग् आथी ११,
 ३, ११, गाथी १३, १६, ५, २०,
 १५, वीथी २६, २१ १०
 ससत्- स वीथी १७, ३१ ९,
 -नानि हिथी ६, २, २०
 ससादा- नाम् आपथी १२, ३, ८,
 -नात् माथी २, २, १, १८
 ससाव गाथी ४, ३, २, वीथी १,
 ४: १३××, माथी
 ससाद्यमान- न्याव गाथी २६, ६,
 १२, आपथी १५, १२, १^१, माथी,
 -ने गाथी ४, ६, ३, -नेभ्य
 गाथी २६, ६, २३, -नेषु गाथी
 ५ १०, ३२
 सं√सन्, ससेत् हिथी १३, ६, १०^१
 सं सन्निव्यदत्- स√स्वन्द द
 सं-सगक^१- क वीथी ३७, २^१
 सं सर्ग- प्रस् सं√यद् द
 सं-सर्प-^१, पंथ- र√स्य् द
 सं-सर्पा- थ√यद् द
 सं√सह>ससह- ह सु २८, २४
 स(सिद्धान- न)^१ अथी ७, १२,
 १९^१
 सं√साध ससावयति वीथी ३
 ११ २१, हिथी २, ७, ५२,
 आपथ २ ७, ९, हिथ २ २, ३०,
 ससाधयेत् आपथ २, ९, १
 हिथ २ १, ११६
 सं-साधन^१-> नी^१- नीम् हिथी
 ५४, ८८

ससाधनीय- न्य हिथी १०,
 ५, १२^१
 सं-सार- प्रस् थ√यद् द
 सं√सिच्, ष्च्, ससिञ्चति आपथी
 १२, १२, ५, वीथी २०, २७
 ५, हिथी १५, ४, ३, ससिञ्चति
 हिथी ८, ३, ३६, ससिञ्चानि ष्च्
 २, २६^१, पूंसम् सिञ्चति
 आपथी ९, १३, ४, वीथी,
 पूंसम्^१ सिञ्चतु आपथी १४
 १६, १, हिथी ८, ४, ४५××, वीथ
 २ १, ३४, ४, २, ११ पूंसम्
 (सिञ्चतु) आपथी १४ १८, १^१,
 हिथी १५, ५, ४^१, ष्च्, आपथ ६,
 १, सम्^१ सिञ्चन्तु आपथी १४
 १९ १, हिथी, ससिञ्चोत् आपथी
 ९, १३, ४, १४, १८, ५, वीथी
 २०, २३ २८, माथी
 सं-सिच्य गौपि १, ५ २२
 सं√सिच्, ससिच्यन्ति वीथी १३
 ४० १०, ससिच्येत् वीथी २४
 २३, वीथ १, २, ५४ वाथ २६,
 ११, विथ ५५ २१, ससिच्येथु
 वीथी १७ ४५ ११
 ससिह- हम् वीथी २३, १ ५
 -हेन वीत् १३५ १^१
 सं√सिच्, ससीच्यति आथिष्ट ३
 ५१ २०, वीथि १, २ ७
 सं√सु(मभिषे) ससुनवानि वाथी
 ४, ४० ११
 ससर्- व आथी ६ ६ ११
 शंथी १३ ५, १, आपथी १४
 २०, ४, वीथी १४, २७ १,
 २३ ५ १४, वीथी २१ ६

a) = सन्त्रयण विक्षय । b) पांथे वैच १ सूनीदन्ताम् टि द । c) वैच १ द । d) = ससदाम् वयन । e) सथा ससदनीय <> ससाधनीय इति पांथे । f) पांथे वैच १ सेर ३ ४ ५, ५ टि द । g) श्चेदिपाताम् इति सस्वर्तु शोधधियत् । h) उप भांते परये च कृत् । i) = ञ्च् । j) = (समान चतुर्द स्पर्थमानयो एतान्कालिक- (रोपरुप j) सोमयाव- (तु ऐवा १ ३) ।

४,५, द्विषी १५,५, २३^०, -वे
 वीथी २३, ५: १०, वाधुथी
 छ, १००-३२, वैथी ८ ६,
 -वी अग्रय ६,६^२.
 स-सुव- -वे सुम् १, ८ १, -तौ
 आपथी १४, १६, १^०, द्विषी
 १५,५,१६^०
 सुसुत सोम^०- -मे लुह २, ३:
 १३, द्राथी ३,३,१८, दाथी १,
 ११,१०
 स सुन्वत्- -न्वतो: वीथी १४,४
 १५,१६.
 सं०सु० > स्रात्- -रताम् विष ५,
 ७४
 स-सर्वा- (> सर्वा/कृ पा) पाग
 १,४,७४.
 स-स्रात्- पाग २, ४, ३१^०, -रम्
 वैष १,१,१३, १५, -रस्य विष
 ९६, २५, -रे विष ९६, ४०,
 वैष १,१,१०
 सस्रात्-कर्म-विराम- -मे वीथ
 २१०,७
 सस्रात्-ससृति- -तौ विष ९६,
 ३१
 स सृत्,ता- -सम् या २, २४, ३,
 २०, -ता अग्र ६८,१,४९.
 ससृत्-मध्यम^०- -न्ता या छ,
 १३
 सं०सु०, ससृजेत् स्त्र २,१,१६
 ससृजति वाथी ६ ८, ११, १५,
 ४, ३, ८x, आपथी, ससृजेते

आथी १४, २९, ३, ससृजत्.
 कौस् १०६,१, ससृजन्ते वैताथी
 २३, १६, ऋथी १३०,
 ३, १३३, २, ससृजन्ति वीथी
 ६, ९ २, १०, १७ २,
 १६,५: १६, वाधुथी छ,११६
 १, कौय छ, ३, २^०, ग्राष्ट छ,
 १६, ४, ऋसृजामि आथी २,
 १०,१८, आपथी १, १२, ११,
 १४, १७x, वीथी, माथी
 १, ३, ५, १३^१, ऋसृ
 जामि आथी २, १०, ६^०,
 आपथी, सस् (सृजामि) शुभ २
 ३३०^१, सस् (सृजामि) वैताथी
 २३,१६^१, ऋसृजामसि^० वीथी
 १४,४१ २१, आपम २ ८,८,
 भाष्ट २,२१ २२, द्विष्ट १ ११,
 १, ऋसृ (सृजामि) कौस् १२,
 १४, अग्र १६, १,६, वाभ ३,
 १४, ऋसृजाथ्य आग्रिष्ट २,
 २, ५ १४, ३, ६, १ ३१,
 वीथि १, ९ ७, द्विष्ट २ ६,१०,
 ऋसृजत्तु वाय ६६,७, वाष्ट १३,
 २, विष २१, १४, ऋसृ
 सृजत् वैताथी २१, २६, गो २,
 १९, ऋसृजस्व गाथी १,४,१,
 ५^१, आपम^१ १, १, १०, १, ४,
 वाष्ट २५, ९^१, माष्ट २, ८, ४,
 जैष्ट १,२२ ५^१, या ३, २१^१,
 ऋसृजत् आपथी ६, २४, ८,
 वीथी १,१२ २५ २१ १x,

गाथी, आग्रिष्ट १, ३, ४: १५^०,
 ऋसृ "सृज आथी २, ५, १, ३,
 १०, १६, आपथी ३, २०, १०, ६,
 २५, ७x, वीथी, द्विषी ६, ७,
 ७^२, आपम १, १०, १^१, वीष्ट १,
 ६, २३^१, अग्रय ५, २, ऋसृ
 (सृज) अग्रय २, २, अग्र ९, १,
 ऋसृजेथाम् आपथी ६, १, ३,
 भाथी ६, ७, ४, ऋसृ (सृजे-
 थाम्) कौस् ७२, ८, अग्र १४,
 २^१, ऋसृजात्तम् वाष्ट ३१, ८,
 सस् "सृजत् > ता कथा ७,
 ५३^१, ऋसृ (सृजत् > ता) आथी
 छ, ७, ४, गाथी ५, १०, ४,
 ऋसृजतात् आथी ३, ३, २,
 गाथी ५, १७, ८, माथी,
 समसृजताम् गाथी १४,
 २९, ६, सस् "असृजत् > ता
 कथा ८, ३१^१, ससृजेत् वाथी
 २५, १४, ४, वीथी १०, १३,
 ११, वीथी, द्विषी १६, ४, ३४^०,
 ससृजेथाम् द्विषी १५, ७,
 १८, ससृजेत् भाथी २, ५, ६,
 १२, १५, १८
 ऋसृजाथाम् आथी ३, ९, ४,
 आपथी १९, ३, ४, द्विषी १३,
 ८, २९, ऋसृजस्वदि^० वीथी
 छ, ११ ७, ५, ९ २३, ८, २०
 २६, १४, ३८ १४, जैथी २१
 १६, द्राथी ६, ४, १२, आपम २,
 ६, ६

a) सोमै ससृजे इति पाठस्य स्थाने वैथी २१, ५ १ सोमसस्य इति पाठे । b) = स सृज- ।
 c) तु पाठम् । d) वष । e) "वति इति पाठः यनि शोष (तु शोष) । f) पाठे वैष १ सुसृजेमि
 वा २, ५, ३ टि इ । g) पाठे वैष १ सुम् नहामि तै ३ ५, ६ १ टि इ । h) सया ससृजामसि (> ससृज
 (वि छ, ६, ४ च) इति पाठे । i) पाठे वैष १ सुसृज तै १, ५, १०, ३ टि इ । j) पाठे वैष १ सुसृजत्
 श १०, ८५, २७ टि इ । k) सस् ससृज इति पाठः यनि शोष (तु आथी प्रष्ट) । l) पाठे वैष १
 सुम् सृज क १०, ८५, २२ टि इ । m) सया आपथी २१, १२, १ ससृजे इति पाठे । n) पाठे वैष १
 सुमसृजस्वदि वा २०, २२ टि इ ।

ससृज्यते वीथी १५, ८. ४, १२,
 वीथी १०८, १, २, अत्राय,
 संसृज्यन्ते वीथी २०, ८. १,
 विसृ (सृज्यन्ताम्) आपथी ५,
 १०, २, १६, १४, ४×४, वीथी २,
 १६ १३, १०, २० : ७, माथी,
 विसृ संसृज्यन्तम् वीथी १, ९
 ८, २२, ८ : २१, द्विथी १३,
 ५, १६, संसृज्येत वीथी २०,
 २४ : ४०, वीथी २१, १६ : ४,
 ८; संसृज्येयाताम् आपथी १४,
 २०, २, वीथी २२, ५ : १,
 माथी, संसृज्येरन् आपथी ९,
 २, १८, वीथी २३, ४३
 २२×४, माथी
 ससृज्यन्ति वीथ २, २, ५६.

सं सृज्-मां-मां- अत्र ५१, ५, ५,
 ७०, ३, १, -मांम् वाधूरी ३,
 १-६ ४, ५, अत्र ७१, ३, २,
 वाध ४, २३, या १, ३, -मां.
 माध ३, ११ १३, वीथु १
 १६, -मांम् शोध २, ६, २,
 वीथी २०, ८. ३३, तत्रा २३,
 २, मीथु ९, ४, ३०, -मांम् वाथी
 २५, ४, ३०, -मांम् वाथी २५
 ४, २९, वीथी २३, ४. १९,
 वीथु, -मांम् तत्र ७७, ७२
 ससृज्-काठ- के वाथी २५,
 १२, ३
 ससृज्-रस-विणचि- -वे. मीथु
 ४, १, २३.
 ससृज्-सामान्य- -वात् वीथ
 १, ५, १०९
 ससृज्-हेतु-स्व- स्वात् मीथ

१०, २, ४,
 संसृज्(नै-अ)थं- -थंम् आपथी
 १६, १३, २, द्विथी ११, ५, १३.
 संसृजिन्- वा ३, २, १८२, -गिथु
 मीथु ९, ३, ३०.
 संसृजिन्- -वात् मीथु ९, ३,
 ४१.
 ससृजन्- -नात् द्विथि १०. १४, १,
 -नाम् वीथ २, ११, ६४, -ने
 आथी ३, १३, ४, -मै वीथी
 १८, १ : ६१.
 ससृजना(न-मा)दि- -दि आपथ
 १२, ३, १६, ८
 ससृज्-गोप- -मै आपथी १६,
 ४, १, द्विथी ११, ४४.
 स-सृज्य वाथी ४, २, ७×४, आपथी
 स सृष्ट, ए- -एः आपथी ५, १०,
 २, १, वीथी २, १६ : १३,
 माथी, -एम् वाथी २५, १२,
 ४, आपथी ५, १०, २×४,
 वीथी, -एस्य माथी ५, २,
 २, १६, -एआ आपथी १९,
 १, १०, ५, ११, वीथी १७,
 ३२ ६, माथी, -एआन् आपथी
 २०, १४, १०, वीथी ११,
 २ : १, २०, ९ : २, द्विथी ३
 ३, ४१, १४, ३, १७, -एआमि
 द्विथी २४, १, १०, आपथ ३,
 १५, -एआमि माध २, १९ :
 १५, -एआम् माथी १६, ३,
 १९, आपथी १६, ४, ३, वीथी,
 -एआस वाथी २, १, १, ३५, १,
 -एआ आपथी १९, २१, १६, द्विथी
 २२ ४, ६, द्विथ १, २६, २२,

वीथु ७२, ३८, वा ४, ४, २२,
 पावा ४, ४, २४, -एआ वीथी
 २०, १ : ६३, द्विथ २, १, ४९,
 -एआ वीथी ३, ४, ३, -एआ
 आपथी २२, २६, ११, द्विथी
 २३, ४, २६
 ससृष्ट-कर्मन्- -मै वा ३, १०,
 ससृष्ट निव- -निव तत्रा १६,
 २५, १.
 ससृष्ट-विसृ- -वि आपथी
 १९, २१, १४, द्विथी २२, ४, ६
 संसृष्ट-होम- -मम् आपथी ६,
 १०, १, १५, १२, १, वाथी
 ३५ ११, माथी
 संसृष्टि- -ष्टिन् विथ १७,
 १७, -ष्टिनि मीथ २८, २९,
 -ष्टी विथ १७, १७, मीथ २८,
 २९.

सं√सृप्, संसृजित आपथी १२,
 १६, १७, अत्र ६४, ७, ६, विसृ
 आपथी १६, २५, २, वीथी १८,
 १८ २, द्विथी ११, ५, ४२,
 ससृज् आपथ १, ६, ३३, द्विथ
 १, २, ५५
 स सृज्- -मैः वीथी ८, २०, ८,
 १२, २७, ५, वीथी, अत्र ६४, ४,
 १०, -मैस्य वाथी ९, १२, ८,
 -मैस्य माथी २, ४, १, १३.
 ससृज् चतुर्वीर- -मयो वीथी
 ४१, १३
 सं सृज्- -मै वीथी २७, ४. १,
 १२, द्विथि ४ : ६.
 सं-सृज्- -मैस्य वाथी १, ६, १२
 स-सृज्- -स्य वाथी ३, ३, ४, ५,

a) विथ > नाथ (२४५) । उप कर्मणि प्र (तु मू. ३.३.३) । b) विथ. (अभि) । c) परस्मै
 पामे । d) पाठ संसृज्यन् इति श्लेष (तु संस्कृतं टि, सप्र माथी ६, १, २, ४ व) । e) सृष्टे ससृष्टेन
 इत्यस्य स्थाने सप्ता आपथ २, ३, १९ सृष्टससृष्टेन इति पामे । f) तु १९५९ । १. । g) सप्ता मा १३, ३१
 प्रम. समसृष्ट इति पामे । h) नाथ ([नाथ-] अहीन- [वाथी], मन्त्र- [माथी]), भाष [अप] । i) वैप १६ ।

बेताभी ३६, ३, -सुभाम् वाभी
३६, ४, २१

भस्वपा० -> 'वा-ह्रि-
-वीपि वाभी १५८, १०

भस्वरे(वा इ)टि-टिभि
आभी ९, ३, १७८, -क्षीनाम्
आभी ९, ४, ६

भस्वपा द्विपि-विभि आभी
१८, ०, ७, २२, २५, १३, वीभी
१८, ५, १५, ६, १७, द्विभी
१३, ७, १, २३, ४, ८^{१०}

भस्वपा द्वि-टिभि वाभी
१५, १४, ३८

सं०सू०-सं०सू०

सं०सू०, ससवापि वा ५, १

ससेष्यवे ऋण ४७, २, ७, ससे
व्यन्ताम् वा ९, ३३, ससेष्यन्त
वा १२, ४१^८

ससेवि, वा-पाग २, १, ५१, -वा
वीभी २६, १८, ७

ससेवि, (>सात्यि- वा) पाग
४, १, १६

सिस्वक^१ वाभी ३, ०, ८, २

सिस्वरण-प्रथ सं०सू०

सिस्वरादीष्ट वाभी ३, २, ८, ३

सिस्वकारक^२-कणि सुषप ८५, ३

सं०सू०, सस्वरवे वीभी १८,
३८, २, ६, १४, वाभी,
सस्वरवे आभी १५, ६, ७,
माभी ११, ७, १, १२, ५, १, माभी,
सस्वरवे वाभी ४, १५, २२,
१७, ४, ५, वाभी २, १६, ६,
वाभी ३, १, २, २०, ४, २,
सस्वरवे वीभी २०, ६, २०,

सस्वरवे आभिष्ट ३, ९, १,
९, ३, १७, २२, वीपि, वष
२, ७, ७, ८, वष २९

सस्वरकार वा १, १३, १४,
सस्वरिष्ये वीपि १, २, ७

संस्वरिष्ये वाप १७, २७,
आपथ २, १८, १, वीपि २, ३,
२५, विष १५, १६, द्विपि

सस्वरिष्ये वीभी २४, १८, ८

सस्वरण-वाग् वाभी ३३,
१०, ११, १५, माभी ३, १,
१९, गोष्ट ४, ४, ५

सस्वरण-कल्प-व्य गोष्ट १,
७, २६

सस्वरण-वाग् आभिष्ट ३, १०, ४,
५ वीपि १, १, ५, ४, ४,
विष २२, ५१, ५१, ७४,
-वाग् आपथ २, ३, ४, २५,
-वाग् आपथ १, १, १२, द्विपि
१, १, ११, -वाग् वीपि ७, १, ९

सस्वरण-पाग ३, ४, ७, ४, -वा
आभी ७, ८, ९, १५, ६, ८, २४,
१, २९, वीभी, आपथ २, ३,
१५^३, -वाग् आभिष्ट २, ७, ८, २३,
३, १०, ४, २३, ५, ३, वीपि,
-वाग् वीपि ३, ४, ४, ४, ४, ६,
२५, ४, -वाग् आभी ४, १, २०,
वाभी १, ८, ३४, आपथ १०,
३०, १३, १४, ५, २, माभी,
-वाग् वीपि ८, १३, वीपि
५, ३, २१, ९, ४, ५, ५, ४, ४, ४,
-वाग् वाभी १२, १, ११,
२५, ४, ३९, वाप ११, २३,
गुप २०, वीपि ३, १, १५, -वाग्

आभी ८, ५, १९, आभिष्ट
३, ९, ३, १०, वीपि, -वाग् वीभी
२१, १३, १, २३, १४, ९, ४, ४,
वीपि, -वाग् माभी १२, ५, १,
-वाग् वीपि २, १, १, वष ४४,
१, ५, वष २८, -वाग् वीपि १,
१, १५, वष ११, वीपि ८, ८,
वीपि ९, ३, २८, ४, ४, -वाग् वीपि
३, १, ४, वीपि ७, १, २

सस्वरण-वाग् वीपि ९१, १९

सस्वरण-वाग् वीपि १२,
४, २८, -वाग् वाप २०, १८,
वीपि ५१, ५

सस्वरण-वाग् वीपि १०,
२, ७१, -वाग् आभी ५, ६,
२५, वीपि १, २, ४, ५

सस्वरण-वाग् वीपि ६,
८, ६

सस्वरण-वाग् वीपि ९,
४, २१, ११, २, ५०, -वाग्
आभी १, १०, २१, माभी १,
१०, १५

सस्वरण-वाग् वीपि १०,
२, ६५

सस्वरण-वाग् वीपि ३,
११, १

सस्वरण-वाग् वीपि ५,
३४

सस्वरण-वाग् वीपि १,
१, १७, वाप ४, १

सस्वरण-वाग् वीपि १०,
४, ५६, -वाग् वाभी २६, ४, १

सस्वरण-वाग् वीपि १०, ४, ५, २

a) = सं०सू० । b) 'वा ह' इति शोध (तु राम माध ५, ४, ५, ३, कर्क PW BW व) । c) लप
'वेष्टि' <> 'वामिष्टि' इति पठि । d) 'व' इति पाठ इति शोध (तु आपथी २२, २५, १३) । e) समसेष्यन्त
इति राज । f) 'व्यप' । g) 'वुद्धि' पाठ इति शोध । h) 'सस्वरण-वाग्' इति शोध । (तु वाल्मीकि
[शास्त्र ३, २५४] पमे व) । i) 'वैषा ५, ६५, ६, १, १२७, १३८ पराण ६ । j) 'भाप, वाप । k) 'वाग् वीपि १२७८ । d ।

सस्कार-श्रुति-वैशु- -शुभि अथ
२३, ११, ४
संस्कार-सामर्थ्य- -श्यात् मीम्
१०, ३, २१.
सस्कार-होम- -सम् वैशु १, ५
१२
सस्कारा(र-य)वीत- -ते अथ
३७, १२, १.
संस्कारा(र-अ)न्त- -न्ते वीशु
४, ९, १२
सस्कारा(र-अ)न्तर- -रे माथी
३, १, ४
सस्कारा(र-अ)भाव- -न्वात् वैशु
४, ६ ११
सस्कारा(र-अर्थ)र्षा- -र्षा
वीथी २७, १०: १.
सस्कारा(र-अ)र्षा(र्ष-अ)लोप-
-पात् मीम् ११, ३, ३२^१
सस्कारे(र-र्)न्सु- -न्सु पाशु
२, ५, ४३
स स्कारक- > सस्कारक ल-
-न्वात् मीम् ३, २, २.
स स्वार्थे, र्षा- -र्ष्य आशिष् २, ३,
५ ८, -र्षा कथ ३, ९, ११,
-र्षा कप्र २, ७, ७.
सस्कार्ये प्रेत-सयुक्त- कै
बुदे ६, १५८
स स्तुत, ता- -त् वैशु १, १४,
अथ १३, ५, ५ शंघ ११, वीथ
८, ८, -तम् पूर्ववीथी ६, १६
८, ८, ११, वैताथी १, ५,
अथ १८३, आपथ, -ता वाथ
१७, ७३, वीथ ४, १, १७, विथ
१५, ८, -ता श्याथी ५, ६,

११, वीथी २, ६ २५^१, द्विथी,
कप्र १, ९, ३, -ताम् पाशु
१४, ८, विथ ५१, ५९,
-ताभिः वीथी २०, ४ ६,
२७: १०, २१, १४ २०,
वीशु १, २, ९, ३, ९, वीथि २,
९, ३, ३, ३, ४, -ताम् माथी
१, २, ११^१, वाथी ३, २, ७, ५६,
-तावाम् वैशु १, १० १२, ७,
९ २, वाथ १७, १३, वीथ
२, २, १४, विथ १५, २, -तासु
विथ २२, ३३, -ते पाथि ३०,
वैथि ११^१, मीम् ५, ३, २१,
१२, २, १२, -तेषु मीम् ६ ८,
१
सस्कुत-कर्म्मन्- -र्माण मीम्
११, ३, १६
सस्कुत-रथ- -स्वात् मीम् ३, ४,
४३
संस्कुति- -ति^१ माथी २, ४,
१, २४, गुत्रा ५, ४३
स-स्कुल्य माथी ३, २०, १२, ४,
१५, २३, काथी २५ १०, २४xx,
आथथी
सस्कुतत्र- -त्रम् अत्रा ३, ४, १^१
संस्तुते वीथी १८, ४१ १४
संस्त्वम् रम्, सस्त्वम् र वा २,
१२
स स्त्वम् कौम् २४, १२^१, २५,
१७, २६, ९, ७६, १२
स रत्वम्- > रत्व-कर्म्मन्-
-र्माण वा ५, १६
संस्तुति- (> सस्तीवक- वा)
पाग ४, २, १२७

संस्त्वम्, संस्तुति माथी २, १, ३,
३५, ५, १, ७, २६, वा २ २०,
(सम्)स्तुत्वा कौम् २१, २३^१,
संस्तुवात् आथी १ ३, ११, ३,
१, १०
सस्त्वते गुत्र ३, ८१, वा ७,
१०, संस्तुते वा १२, ३
सस्त्वन्ते वृद्ध ३, ७, ६, १५६,
७, ११६, वा ७, ६, ७
स स्त्व- -व श्रय २, ७, ३३, वृदे
-वात् वृदे ५, १७२, मीम् १७,
२, २७, ६, ३५, -वेन वा ११,
१६
संस्तुति- -क अत्र ४८
१४८^१, -का र्थम् ४८
१३४, १३९, १४४, वृदे २,
१५, वा ७, ८, १०
सस्त्विकी- -की वा ७, ८
स-स्तवान- पाठ २, ८१
स स्तुत, ता- -त् निम् २ १३
२७, ८, ३, २०, वृदे १,
१२७, २, २xx, -तम् आथ
१, ३, ४३, द्विथ १, १, ११६,
वृदे ६, ८०, ८६, -तस्य निम्
१, १० २३, -ता निम् ३,
१३ १९, वृदे २, १४९xx, -ताम्
वाथी ५, ५६, -ताम् वृदे ४,
१३७, -ते वृदे ३ ८२, ४, ६xx,
नीम् ६, ८, ७, -तौ वृदे २,
१४८, ५, ४८xx
सस्त्वत तम्- -म् वीथी २४,
१२ १०
सस्त्वत प्राय- -भयो वा १२, २
संस्तुत पत् वृदे ३ ८१

a) आनर्थलोपात् इति जीत । b) = वस्तु भाषा- । c) वय । d) पामे वैप १ सुस्तुति
मा ७, १४ टि द । e) वैप १ द । f) 'स्व' इति पाठ^१ यति शोध (तु सरकुट्टि टि) । g) तु
पगम । h) पामे वैप १ सुम् स्तुत्वाथी ५, २, ७ टि द । i) मत्तये टम् प्र । j) = वस्तुत
(= मनुष्य-) इति का (ता १२, १३, २४) ।

संस्तुति-लयः वृदे १, ७५; -तिः
 व्याप १, १२, १४; द्विप १,
 ४, १४; मीम् ७, ४, २०.
 संस्तुति-मात्र-ग्रम् व्याप २,
 १३, ११; द्विप २, ३, ११.
 संस्तुत्व-वत् वृदे ४, ७९.
 संस्तुत्व-वत् वृदे ३, १३; १०; ४, १२;
 ११.
 संस्तुत्व-वत् गोर १, ४, ११^०.
 संस्तुत्व (आच्छादने), संस्तुत्वानि
 वीथी २२, १; १४; माथी;
 संस्तुत्वानि निम् ४, १२; ५;
 संस्तुत्वानि वीथी २१, ४; २७;
 २२, १; १५.
 संस्तुत्व (>) ति-रा डनिम् १;
 ४६.
 संस्तुत्व-द्विक-द्विकः द्वय
 ४, ३९; -द्विकः निम् १, ३; ९;
 द्वय १, ८, ८; द्वय ५, ५८;
 द्वय ५, २७; ६, ४४; ४४ १६,
 ६१; वि ३, ४३.
 संस्तुत्व-वत् वीथी १५, २८;
 २४; माथी २, ११, १३; बाथी;
 -वत् वीथी १३, १; -वत् माथी
 १, २, १, ४; -वत् माथी १, १, ३,
 १०; २, १, ४४; माथी २, २, ८;
 -वत् निम् १, ३; १०.
 संस्तुत्व-वत् व्याप १, ७, ५; ११, ४;
 १५, ६; ५, २७, ९, ४४; वीथी.
 संस्तुत्व-वत् (वा) वा-वात्
 माथी ४, ८, ३.
 संस्तुत्व (>) संस्तुत्वानि, वा-वत् वा
 ३, १६; ४, २४; -वा: व्याप ४८,
 ७५^०; -वा: वा १, १, ६४^०.
 संस्तुत्व-प्रत्यय-वत् वीथी १, ४,

२, ६४.
 संस्तुत्व-वत् वा १, ०, ९; १२, ९.
 संस्तुत्व (>), संस्तुत्व वीथी १०, २, १,
 १८; १४, २, २१; १०, ८४; ४४;
 वाथी; संस्तुत्व व्याप ३, १४,
 ५; वीथी १५, ११; १५; वीथी;
 संस्तुत्व वीथी १२, ७, १०;
 वीथी १४, १३, १४; व्याप ३;
 संस्तुत्व व्याप ४, १२, १०^०;
 १६, १५^०; माथी; संस्तुत्व वीथी
 १८, १५; १९; द्विप १५, ४,
 २६; वीथी ८, १, २५; संति-
 वृत् वीथी २३, १४; २३.
 संस्तुत्व वीथी १८, ४१; ९;
 संस्तुत्व वीथी १, ७, ४, ११^०.
 संस्तुत्व वीथी ५, २०, ८^०;
 व्याप १; संस्तुत्व वीथी १,
 २७, ५; ९; १८, २४, २४; वीथी
 ८, ९, २^०; ४४; माथी; सम्-
 वत् वीथी १८, ४१; ८; १०;
 संस्तुत्व व्याप ३, १४, ६;
 ९, १, १०; १५, १३; ४४; वीथी;
 संस्तुत्व वीथी १३, ५, २;
 वीथी १०, १२, ८; व्याप १८^०, १,
 ११.
 संस्तुत्व वीथी २१, ७;
 ८; २५; २१; ४४.
 संस्तुत्व-वत् वीथी १, १६, २
 संस्तुत्व-वत् वा ४, ४, ६९^०; -वत्
 निम् ३, १; ७; ८, १२; ८; -वत्
 व्याप ८, १३, ३३; वीथी १४,
 ०, २२; १३, १०, वीथी; -वत्
 व्याप ६, ११, १; ८, ४,
 १९; वीथी १५, ५, ६; निम्;
 -वत् वा १०, ८, ५५;

निम् ३, १; १२; १५; वीथी ५,
 ३, ३९; -वत् वा ३, २; २;
 २६; -वत् व्याप ४, ७, ७;
 वीथी १३, ५, १८; ४४; वीथी;
 वीथी २, ४; १३; -वत् वा ३, १०; ५;
 ५; १८, ५; वाथी ३, १०; ५;
 ५; -वत् व्याप १३, १, ४;
 ५, २१; निम् ४, ५; १५; -वत् वीथी
 वीथी ६, ६; २४; -वत् वाथी
 ७, २१, ४; माथी ६, १, १, २;
 वीथी; -वत् वीथी ३, १६; १५;
 निम् ३, १; ९.
 संस्तुत्व-वत्-ग्रम् निम् १०,
 १०; १३.
 संस्तुत्व-वत्-ग्रम्-वत् वीथी ८, ३, ९.
 संस्तुत्व-वत्-ग्रम्-वत् माथी २,
 ५, ३, ३०.
 संस्तुत्व-वत्-ग्रम्-वत् वीथी १,
 ११; १५; ६, २८; -वत् व्याप
 ६, १३, १९; -वत् वीथी १, ११,
 १४; १३, १०; ६, १३, १७.
 संस्तुत्व-वत् (१) निम् १०, ३; ३.
 संस्तुत्व-वत्-वत्-वत् निम् ४, ५
 १७, १८; -वत् निम् ४, ५; ११;
 संस्तुत्व-वत्-वत्-वत् माथी १२,
 ३, ८.
 संस्तुत्व (स्था-अ)न्याय-वत्-वत्
 वीथी १०, ५, ४९; ५२.
 संस्तुत्व (स्था-अ)न्याय-वत्-वत्
 निम् ४, १२; १५.
 संस्तुत्व-वत्-वत्-वत् निम् १०, ४; ७.
 संस्तुत्व-वत्-वत्-वत् व्याप १, ७,
 १६.
 संस्तुत्व-वत्-वत्-वत् वीथी २४,
 १; २, १५.

a) = उत्तर-प्रदेश-। b) वा. १.५.२९ संस्तुत्व इति पाठे. c) पृ ५७२ इ.।
 d) = १७८क-। e) तु. पाठ. f) वा १, ३, २२ पराच्छः इ.। प्रथमोच्छयं वा. समाप्ति इति। g) *वति
 इति शीघं. h) वैप इ. इ.। १) तु. पाठ.। स्था- इति नारदा.।

संस्था-विकल्प- -त्याः काशी
८, १, १६.
संस्था-विकृत- -तः काशी १६,
२९, ४.
संस्था विधि- -धिषु विष् ५,
११ ४.
संस्था-धृति- -धेः काशी २५,
५, १६.
संस्था-स्तोम-स्तोत्रिय- -यम्
वैताथी ३५, २३.
संस्थो(स्था-ठ)त्तर- -रम् काशी
२५, १४, १०.
सं-स्थातोत्तर()भाषाथी १, १६, ११,
वीथी २६, ९, १७.
स स्थान- -नम् अथ ६३, २, ६,
गौध १०, १५; -नात् काशी
५, १४, २, ८, १२, ९, भाषी ३,
१८, ९, वैथी
सास्थाविष्- पा ४, ४, ७२.
संस्थान-धनस-गण- -ण द्विथी
९, ७, १०
संस्थाना(न-म)न्त- -न्वात्
काशी १०, १६, १.
संस्थानै(न ए)क्य- -क्यम् या
७, ५
सं स्थान- -नम् सीम् ९, १, ३१
संस्थापनीय- -यम् निष् ९, ७ ८
सं स्थापयत्- -यत्सु काशी १३, ५,
१८, -यत् कापी ३, ५, २
स स्थाप्य काशी ६, ८, १४, १२,
६, १६, काशी
स स्थाप्य- -प्य शीथी ११, १३,
२, १४, २०, ३, २६, ५, वैथी
२३, १३ २, द्विथी, -प्यम् काशी
१३, ३, १, काशी २५, ७, १०,
-प्या आथी १०, २१, १३

संस्थित,ता- -तः वीथी १७, ४६ :
२, वप्र २, ७, ३; -तम् काठथी
२३; अथाय ३, ६, माथि १०,
८; -तयोः आथी २०, ६, ११,
काथी २, २, ५, १७, -ता काथी
१४, २, ११, काथी ५, ६, ११;
अथ ३१, ३, २; -ता दिष्ट १,
१८, ३; अथ ६९, १, २; -तात्
वृदे ५, ६७, -तावाम् काथी २,
१३, ९; १७, १६; १९, ३०××,
शाथी, -तासु काथी ३, ४, १,
३५, काथी ९, ९, १०, -ते आथी
१, १३, ७××, काथी, -तेड ते
आथी २३, ११, १२, द्विथी
१८, ४, १५, वैताथी २१, ९,
-तेन वाथुथी ४, ६९ ३, ७६ :
५; -तेषु आथी ५, ११, १, ६,
५, १, वैताथी ३६, १०, -तौ
माथि ९, ८.
संस्थित-मह्य- -तु काठथी
७१, -सुपः काथ ३६, ६
संस्थित-होम- -म. कौत् ३,
१९, -मा कौत् ६, ३, ४७, १०,
६३, २९, -मात् वैताथी २, १०,
४, १३××, कौत् १४०, १८,
-तेषु अथान १, २, २, १, २,
४, ७, ८
स स्थिति- ति. आथी ६, १४,
३, वैथी २, १, १२, माथि १,
१८, -तिम् वाथ ८, १५, १,
-तै वैताथी ३६, १३
सं-तिष्ठ(त्)न्ती)- -न्तीनाम् काथी
१६, २९, २३१.
स तिष्ठमान- -ने वीथी १८, २९
१८, २६, २ : ५
संस्था>स-स्ताव- -तम् या ५, १

संस्था, सस्यसवे वैताथी ३, १३,
सस्यसवे काथी ५, ९, २६, ७,
६, २१; वैथी ३ ७, कौत्,
संस्थानतः कौत् ७९, १०,
संस्थान्ति काथी ९, ११, ४,
अथ ४४०, सस्यसवे काथी ३,
१, १८, वैथी २०, १४ ९, १३,
वैथीना ७५××, माथि, सस्य
सस्यसवे काथी ७, ४, ४,
काथी ९, ३, ९, आथी, सस्यस
वेत् काथी २, ४, ९, १०, सस्यस
वेत् काथी ९, १४, १८, द्विथी
१५, ३, ३१
स-स्यस- -स्यम् वाथ २७५ १,
-सात् पा ३, ३, ११६
सास्यसक- -कानि वाथ
१, १७, माथ १, १, ११, वाथ ६
१०
स स्यसक- -कम् वीथी २६, २३
२
सं-स्यस- -नात् आथी ९ ११ ५,
वीथी २०, २१ २, अथ ४४७
१७, -ने वीथी २७, ८ ३,
सुधन ८६ १४
स स्यसक- -यत् काथी १, १, ६
सं-स्यस- -स्यम् आथी १, २०, ११, २
४, ११××, वीथी.
सं-स्यस- -स्यम् काथी २६,
२, ३९, ३, १०, सुधा ३, २८
स स्यसक- -सत् गोथ २, ८, १३,
अथ २४, ४, ३
सं-स्यस- -स्यम् वीथी १७, ४०, ६,
माथ २, १९ ३, द्विथ १, ९,
११
स-स्यस- -स्यम् काथी ३ १०, ८, १२, २३,

a) वत । b) ऋषि इति वीथि । c) तस्येदानीं पुत्र प्र दत्तं (या ४, ३, १२६) । d) उप

शोभी; वैताभी २८, १४^०.
 सं-स्पृष्ट, छ- -छः वीथी १०, ४८ :
 २५; अण ३५, १, १३, १५; २, ८;
 विष; -एम् बाथी ९, ४, २८;
 बाणगी १, २२, ३५; वीथी;
 -एयोः कौर् ३५, २१; -छा गा
 २, १४; छ, ३४; -छाः वीथी
 ६, ३२ : ११; ३३ : ५; ८५; ५;
 अण; -छात् बाणगी २, ९, ५;
 वीथी ९, १५, १२; भाथी; -छाम्
 वीथी ९, १५ : २३; २८, ३६;
 दिष्ट १, २, ३; ४; -छे बाथी
 १७, १२, २४; वीथी १, ८ :
 १६; ५; माण; -छे वीथी ९,
 १५; २; ५; १०; वैथी ५, ६ : ११;
 द्विथी ८, ३, ५५.
 संस्पृष्ट-नेफ^० -फम् शौच १,
 ३७.
 संस्पृष्ट-जने^० -जानि शौच १,
 ४०.
 संस्पृष्ट^० -छः द्वि २, १.
 संस्पृष्ट्वा वासिष्ठ १, १ : ३६^०,
 २, ६, ७ : १५; ३, ११, २ : ३.
 सं-स्पृष्ट- -छा या २, १४^०.
 सं-स्फाप् > पुंस-स्फाप्^० - ० न
 वीथी छ, ११ : २३; द्विथी १०,
 ५, ४९; -नः तैत्रा १३, १८;
 पावा ६, १, ६५.
 संस्फाप्-देवता-> फ्य- न्यम्
 अण ६, ७९.
 संस्फाप्, स्फाप्^० (> सोरफा [२४७])
 यक- पा.) पाण छ, २, १२७.
 सं-स्सु, संस्मरेत् शंभ १०३; १०७
 संस्मरण- -ये विष ९९, ८.

सं-सृणु- -तः भाषि ७८.
 सं-स्यन्दु > पुंस-स्यन्दु^०-
 नए सुपा ६, ८; पा ७, ४,
 ६५.
 सं-स्यन्दु- -न्दोः शोभी १६,
 १८, १०.
 सं-स्यु, संस्रवन्ति सुदे ५, ९२^०;
 पुंसम्-स्यन्ति^० बाणगी १६,
 २७, ५; वीथी १०, ३३ : २५;
 माथी ६, १, ७, २६; बाथी २, १,
 ७, ५; वैथी १८, १९ : ८; द्विथी
 ११, ७, ५५; पुंसस्रवन्तु बाणगी
 २, २१, १५; भाण ३, २६ : ३;
 वीथी पुंसस्रवन्तु वीथी १०, ४^०;
 अण २०, २^०; अण १, १५; २,
 २६^०; १०, १६.
 संस्रावन्ति वीथी ७, ७ : १३;
 १५, २६ : १; वीथी ६, ८;
 संस्रावणेत् वैथी २, १८ : १२.
 पुंसस्रवोत् वीथी १०, ५९ :
 १३; वैथी १९, ७ : १०; द्विथी
 १२, ७, १०.
 सं-स्रव- -चान् बाथी ३, ६, १७;
 १०, ४, ३; बाण छ, ७, १५;
 पाण १, ११, ४; वीथि २, २, २७;
 -वे माथी ५, १, ५, ५८;
 -वेम्यः बाथी १०, ४, ३; -वौ
 बाथी १०, ५, १.
 पुंसस्रव भाण^० -भाः काथी ३,
 ६, १०^०; अण १, १३२.
 संस्रव(क-प्रा)सेचन- -नम्
 बाथी १५, १, ४.
 सं-स्ताव^० - पा ३, १, १४१; -वः
 वीथी २१, १ : ३२; १९ :

२५; ५; वैथी १२, १ : १७;
 -वम् बाणगी छ, १२, १०; १२,
 २३, ११; वीथी; -वाय वीथी
 १७, १० : ३५; २१, १९ :
 २४; ५; -वात् वीथी ११,
 १२ : १२; १३ : २६; ५;
 -वाय्याम् वीथी ५, ८ : १४;
 ३३; -वेण बाणगी ३, ७, १४;
 ७, २१, ४; १९, ५, १०; ५; वीथी;
 -वैः वीथी ७, १३; १; १३, ३२ :
 ५; १८, ८ : १८.
 संस्राव-भाण^० -भाः बाणगी
 ३, ७, १४; वीथी १, १९ :
 ३७; भाथी ३, ६, १७; माथी
 १, २, ४, २७; बाथी; -गान्
 माथी छ, १८, ७; वाथी १, १,
 ४, ६; वैथी ७, ७ : १५; द्विथी;
 -नेम्यः माथी २, २, ५, २४;
 -नेतु माथी १, ४, २, २१;
 -नैः अणाय १, २^०; २, १^०;
 २-४; ७^०; ८.
 संस्राव-न्य वीथ १, ५, ११.
 संस्रावोत्तुवोत्तुवौ वैथी ११,
 १ : १४.
 संस्राव(व-अ)न्त- -न्तम्
 बाणगी ८, ३, ६.
 सं-स्रावित्- -वित् वीथी १५, १ :
 ६, ८; वाणगी ३, ६९ : २१;
 २३; २६.
 संस्रावित्- -वित् माथी ५,
 २, १२, ३३.
 सं-स्राव्य वैथी २, ६ : २; वैथु.
 सं-स्रु(त<)-ता- -ताः शोभी १७,
 २२, १९.

a) समारोप्य इति ० शेषः । b) यत् । c) अहर्थायां यत् प्र. । d) वैथ १६. । e) स्फाप् इति भाषि. । f) सहीय- इति पाष्. । f) पाने. वैथ १ सुम्-स्यन्ति टि. प्र. । g) स्रव. वै १२, ४२, ३२ संस्रवन्ति इति पाणे. । h) स्रव. सि २, १, १ संस्रवन्तु इति पाणे. । i) संस्राव (ना २, १८ वा २, ४, ६, माण १, ८, ३, २५ च) <> संस्राव (वि १, १, १२, २ तैत्रा ३, ३, ७ च) इति पाणे. ।
 वैष-१-४७

सं-सुत्य माश्री १,३,३,१.
 सं√स्वद्, संस्वादवेत् गोश्री ८, १७
 संस्वन्त् अत्राय १, ४१.
 संस्वाद^० - > ष्-विभ- -सौ श्रत
 २, २, १.
 सं√स्विद् > सं-स्विद् - -शानि
 वाधुश्री ४, ४०, ५.
 सं√स्वृ^०, षंसमस्वत् आपश्री १६,
 १८, ७, वैश्री १८, १६ ३, हिश्री,
 संस्वरेत् लाश्री ६, १०, १९,
 संस्वरेत् ब्राश्री ३, ४, ५.
 संस्वार^० - > ष-व्याध-ता- -ता
 वाश्री १, १, ३०.
 संस्वारि(र-वे)स्वर्ष- -यम्
 वाश्री १, १, १, ८.
 सं√हन्^०, राहन्ति वाश्री ४, २:
 २४, ४-३४×४, वाधुश्री;
 षंसम् हन्ति आपमं २, १६,
 ९, माश्री २, ७: २४, हिश्री २,
 ७, १^०, सप्तन्ति वाश्री १७, २,
 ६, राश्री^० ह्य आपमं १, ११,
 ११, सम् हन्ति आपम ६, ५६^१,
 संहन्तुः अत्र १, ९, १०.
 सं-हत्, ता- -ता वैश्री ८, ४ १०;
 शंष २७२, -ता अप ६४, ३,
 १०, -ताम् माश्री २, ४, ५,
 १०, निश्री १, ११: २७, वीश्री
 ८८, ११, अत्र ४४, ४, ४, -तानाम्
 शंष १६८, १७६, विष २३, १९,
 माश्री १, १६, -तानि वैष ३, ४,
 १, -ताम् माश्री १, ३, ३,
 १२, वीश्री ४, ४, विष ७१, ५३,

-ताम् वीश्री ५ १, १६, गोश्री १,
 १, ९, वीश्री ४, १०; १५; -तेन
 पाश्री १, ६, ३; -सौ आश्री १, १,
 २३.
 संहत्-केना^० - -ता काश्री १, ३,
 माश्री १, १, २; वाश्री ६, ३.
 संहत्-पुच्छि- -पाश्री ५, ४, १२८.
 संहत्-वत् शंष १७०.
 संहत्ते(त-ऊह)स्^० - पा ४, १,
 ७०, -स्म् विष १, २, ३.
 सं-हति- -ति: वीश्री ३०.
 स-ह्य शश्री १७, २, ९, आपश्री
 ७, ४, ५^१×४, वीश्री १८, २०
 ३, भाश्री ७, ३, ८^१×१, ब्राश्री
 सं-ध- पा ३, ३, ८६; -वे पा ३, ३,
 ४२; -वेसु माश्री २, १०, ६
 सध-वारिन्- -रिण अप ५२,
 १, ४.
 सध विध- पा ५, २, ५२.
 सध-प्रतिषेधा(ध-अ)र्ष- -धम्
 पावा ४, १, १६६.
 सधा(ध प्र)ह-लक्षण- -णेषु वा
 ४, ३, १२७
 सधा(ध-आ)दि- -दिषु पावा १,
 ३, १०, ४, ३, १२७^०.
 संधा(ध अ)ब- -बम् थापध १,
 १८, १६, हिश्री १, ५, ८५
 सं-धाट, त- पावा ३, २, ४९
 सं धात्- पाश्री ४, २, ६०^०, ४,
 १०३, ५, १, १७, १०१, -त
 वा १०, ३३, ११, ३२, -ताम्
 वाश्री २३, २४, १६, वीश्री १,

६: २०^१, -तस्य पावा २, १,
 १, ६, ४, १०४, पात्रवा ५, १३,
 वीश्री ७, ४, १७, ९, १, २५, -ता
 वाश्री १०, ५, १६, -तात् वाश्री
 ४, ३, १२; वीश्री ९, १, २६, -ते
 अप ७०, ६, १, पावा ५, २, १९,
 -तेन पावा १, ३, १.
 संधात्- पा ५, १, १७
 संधात्कि- पा ४, २, ६०,
 ४, १०३, ५, १, १०१, -क
 वाश्री १३, २४, १७.
 संधात्-ऊ^० - -कम् विष ४३,
 १२
 संधात्-ग्रहण- -णम् पावा ६, ४,
 ४९, ७, ३, ४४, ५०.
 संधात्-व- -वत् वीश्री ८, ३, ४
 संधात् धर्म- -र्षं वीश्री ७, ४,
 १६.
 संधात् प्रतिषेध- -ध वाश्री १,
 १, ६५
 संधात्-विपृक्षीत्(त-अ)र्ष- -र्षम्
 पावा ४, ३, ७२
 संधात्-वाङ्- -वात् वाश्री
 २४, ४, १८.
 संधात्-सधय- -यम् अप ६८,
 १, ५४
 संधात्-सामान्य- -न्यात् वीश्री
 ८, २, ७९.
 संधात्(त-आ)दि- -दीत् वीश्री
 १, ९, -सौ वाश्री ७, १, २०
 संधात्(त-अ)र्षयत्- -न्यात्
 पावा १, २, ४५, पात्रवा ५, १२

a) शम्, सन्तु इति शोध (तु सपा शी १९, ४०, ३)। b) = साम-विशेष-। व्यु?। c) पावा १, ३, २९ पराश्रुत ह। d) = समान ध्वनि:। e) वा ३, १८ पराश्रुत ह। f) सतक्षा इति पाठ? यनि च तक्षा इति च शोध (तु आपम)। g) शम् इति पाठ? यनि शोध (तु सपा श्र ८, ३१, ९ सुम् हत् इति)। h) यत:। १) तपा तै ६, २, ७, ४ सुहन्ति इति धामे। j) 'ह' इति पाठ? यनि शोध (तु आपश्री)। k) = अन्व विशेष। तु पावा। सघट- इति वाति, संघट- इति भाषणा, पायम, सट-, सटा- इति (पक्षे) पायम। l) = नरक-विशेष-।

सं√हा (गती), संजिह्वे कौम् १९, ३१; संजिह्वे द्वि २, १७, १२.
 संहाययति कौम् ८०, ३२.
 १सं-हाय आय २, ३, १११; १३;
 आय १९, ११; वा ३, १८.
 सं√हा (लागे) > सं-जिह्वान- -ः
 शोभो १५, १९, ११.
 २सं-हाय माभौ २, १, १, २८; कौम्.
 सं√हि, षंस्म्...हिन्वन्ति माभौ
 २२, ६, १; द्राभौ १३, ४, १२;
 लाभौ; सम्...हिमोमि, सम्
 (हिमोमि) आभौ ६, ७, ५, शोभौ.
 १संहित* (> सांहित्य-> १सांहित-
 पा.) पाग ४, २, १०५, १११.
 सांहित्ये- -याः कौभौ ३५ : १.
 २सं-हित- सं√पाद.
 संहीय* (> सांहीयक-)
 सं√हु (दाना), षंसंहोमि माभौ
 ३, ८, १०; माभौ २, ५, ५, ११;
 माभौ; कौम् ६, १०.
 सं√ह (=√हृ), संहरति आभौ
 १२, ४, १४; संहरति वा ५१,
 ३, ४; संहरस्व तु १५, २; संह-
 र्ण आभौ ४, ८, १३; लाभौ ६,
 ५, २३; ६, १; निहृ; सम्...
 हरेयुः वाधूभौ २, २१ : २.
 संजमार वा ४, ११ फ्रं.
 संदियते वा ४, ११.
 संहारये गो ३, १, ४; संहार-
 यति कौम् ८०, १३; संहारयेव
 वे १, १४ : १४.

सं-हार- -आह कौम् ३८, १०.
 सं-हरत्- -वृ निहृ १, १० : २७.
 सं-हरिष्यन्- -व्यन् माभौ १, २५, ८.
 सं-हार- वा ३, २, १२२.
 संहार-विहार- -राभ्याम् आभौ
 १२, १२, २३; कौभौ १९, ४ :
 ३०; द्विभौ २३, २, १४.
 संहार-द्वार-संधि-संतनिवृ-
 -नियु लाभौ ६, २, ५.
 सं-हार्यं कौभौ ४, १४, ४; कौम्
 ५, १, १२.
 सं-हार्यं- -यैः आभौ १२, ६, ४;
 शोभौ ११, ८, २; १, २; -यान्
 शोभौ १३, २७, ६.
 सं-हरत-> षन्-शुस- -षन्-व्य-
 पाग २, १, १७.
 सं-हरण्य कौभौ ६, ६, ३; कौभौ.
 सं-हियमाण- -ः वाधूभौ २,
 २१ : ५; -णाः निहृ १, १० :
 १७; -णासु द्विभौ ३, ८, ४८.
 संदियमाण- -शुस- -षन्-व्य-
 पाग २, १, १७.
 सं√हृष् > सं-हृषण- पाग ३, १,
 ११४.
 संहृषिणम् लाभौ २, १०, ६१.
 सं√हृद्, संहायेत् आभौ ५, १२,
 २१.
 संहाययति आभौ १८, ४, ७;
 २०, १६, १४
 सं-हाय आभौ २१, १८, ९.
 सं√ह्वे, संह्वन्ते कौभौ १४, १४ :
 १०; द्विभौ ७, ८ : १५; संह्व-

यति आभौ ११, १६, १११;
 सम्...ह्वयन्म् आभौ ११,
 १६, १२; कौभौ.
 सं-ह्वयन्-> षा(त-आ)दि- -दि
 आभौ १३, ५, ६.
 सं-ह्वयिके- -ःस्य आय ३, १, १.
 सं-ह्वयि-राज्यम्- -ःस्य आय
 ३, १, १.
 √सक् (=√सृ) > १साक- >
 षन्- -षन्- -षन्- -षन्- -षन्-
 १६, १८; कौभौ १९, ६ : १०९;
 द्विभौ १२, ५, ३०.
 सं-ह्वयिक- -ःस्य वाधूभौ ३, ४२ :
 ११; ४, २० : ५; -षन् वाधूभौ
 ३, ११ : १८; ४, १३ : ८.
 सं-ह्वयिक- -ःस्य कौम् ३२, १७;
 ४०, ४; ४८, ४०.
 सं-ह्वयिक- (> साक-दकावन-)
 पाग ४, २, ८०.
 सं-ह्वयिक- -ःस्य कौभौ १६, १८ : १२.
 सं-ह्वयिक- -ःस्य आभौ १३,
 १५, ५; द्विभौ ९, ४, २८.
 सं-ह्वयिक- (> साक-कौभौ-
 षन्-व्य- पा.)
 सं-ह्वयिक- (> कौभौ) कौभौ १८,
 ४, ६.
 सं-ह्वयिक- -षन्-व्य- -षन्-व्य-
 द्विभौ १७, १, १११.
 सं-ह्वयिक- -षन्-व्य- -षन्-व्य-
 (त) कौभौ - -षन्-व्य-
 १७, १६, १४; -षन्-व्य-
 १, २०१३.

a) =व्यय. । b) वृ २४८५ ० द. । c) पागे. वे १ संह्वयेमि का २, ५, २ द्वि. द. ।
 d) सा. लि ५, २२, ४ प्रथ. विधीमिनम् इति पागे. । e) वा १, २, २० पराशुः द. । f) परस्परं पागे. ।
 g) =षन्- । h) वष. । i) उप. द्व. । j) =शक्तिम्- (तु. वे १) । k) तु. सा लि वृ २ १०७ ।
 लया. मा १७, ८५ वा १८, ७, ६ शाकौ इति पागे. । l) वस. उप. =प्रभोः- [तु. ०] । m) वष. उप. =वष- ।
 n) तु. पाका. । सकर्ण- इति भाषा. प्रथ. । o) वा. द्वि. । p) उप. =दाह-श्लो- (रोम-) इति विधापरः ।
 q) परस्परं पागे. । r) उप. द्व. > क्व. । s) वेद. विधापरः सञ्जावे (=सञ्जिणे) इति ? ।

स-कारिक- -कम् आशिष्ठ २, ४, ११: ७.
 सकर्मिक- > का-प्रोपद- -त्रे आशिष्ठ २, ४, ११-१२.
 स-कर्मिक- -कपो, -कस्य, -कगाम् पावा ३, १, ८७, -कात् पा ३, ३, ५३.
 सकर्मिक-ग्रहण- -गाम् पावा ३, १, १३३
 सकर्मिक-निर्वाह(ति-घ)र्थ- -थम् पावा ३, ४, ६९
 सकर्मिक-वचन- -नम् पावा ३, ३, ५८.
 सकर्मिक(क-घ)र्थ- -थम् पावा ३, ३, ६५.
 स-क(सा)ल, ला- -लम् वीथी २०, ३०. १६, वाथी ३, २, ६, ६०, वैष्ट, -ला वीथी २३, ७ २१, क्त ३, ९, १०, अण २४, ५, ३, -लानि काथी ६६, १, ३१, क्त ३, ४, ३, -लायाम् अण ३०, १, १, -ले ऋषा १४, २५
 साकल्य- > ल्य-विधान- -नात् गी ३३, १, ४८
 सफले(ल इ)न्द्रिय- -या. वैष्ट ५, १३ २.
 सकल- (> साकलायन- पा) पाण ४, २, ८०.
 सकल- -लम् वाथी ३, ५, ५६
 ? सकलाथो वाथी ३, ४, ३, ४
 सकल्य- (> की- पा) पाण ४,

१, ४१.
 स-कल्पसूत्र- -त्रे वीथीका २४.
 स(रु)का- तद्- द.
 स-काम, मा- -म वीथी २, १ १०^१, निम् २, ४: १४, अण २३, १४, ४^३; -मम् वीथ २, २, २१, वैथ ३, ९, ९, १०, -मयो विध २४, २३, -मात् अण ३, २६, -माम् वाथ ३, ३३, १७, ७१, -मायाम् वीथ ३, ११, ६, -मेन वीथ ३, ११, ६.
 सकाम-तत्(.) सुष्ट ५३
 स-कार-प्रष्ट २४-६.
 स-काश- -भात् वाथी २, १४, ५, वीथी ३, ५-२२^१, वाथी २, १, २ २०^१, आशिष्ठ ३, ६, ४ १४, वीथि -ले माथी ६, ५, २, ७, माथी ३, १, २, १३, वाथी
 स-किकिदीधि-विदीगय- -यम् वाथी ३, ४, ५, २०
 स-किद्विय- -यम् वाथ ३९, ४६
 स-किशोर- -नात् वाथी ३, २, ७, ३९.
 स-की(ट)डा- टा क्त ३, ८, १७
 स-कुक्षि- पाणम १५६
 स-कुल- > ल्य- -त्वं वीथ ३, ५, ९८, विध २४, ३८, गीत् ६, ७, ३६^१, -ल्यात् वीथ ३, ५, ९६, -ल्यायाम् वाथ ३८
 सकल्प-गामिन्- नि विध ३७, ११

स-कुल- -लम् वाथ २, ७, ११
 स-कुदा- -शान् वीथ ३, ८, ११, वाथ ३, १३, ६
 सकृदा पाणि- -नि वीथ ३, १८, ३
 स-कुष्टिक- -कम् आपण ३, ५, २१, हिथ ३, २, २१
 स-कुसुम- -मम् वाथ ६८, ३, ३
 स-कुर्च- -थम् आशिष्ठ २, ३, ३ १०, विध ६३, १६
 स-कुर्चा(र्ष-प्र)क्षत- उम् वैष्ट ४ ४
 स-कूर्म- -मां अण ६४, ६, ७
 सकृत्^१ वाथी ३, ३, १८, २१, २९^२, वाथी, वाथ २२, १०^०, सहृष्ट^३ सकृत् वाथी २, १७, २४^४, काथी ३, ५, ४^५, ७, २, ३^६, आपथी
 सकृत् वृषि- -वी गीत् ३०, ८, ५८
 सकृत्-कृत- -तानि वीथी २३ १० ११
 सकृत् किल्ल- -लेन वीथ ३, ५, २^१
 सकृत्-त्व- -त्वम् गीत् ९, ३, ३४, -त्वस्य वीत् ३३, १, ३६
 सकृत् पूर्व- -र्वेन वीथ ३, ५, ३
 सकृत् प्रणीत- -त वीथ ३, ८, ५
 सकृत्-अदान(>)ना- -ना वीथी २६, ६ १५
 सकृत्-प्रयोग- -न गीत् ३३, ४, ४८
 सकृत्-प्रयोगिन्- -नी वाथी २४ ३, ३०.
 सकृत्-प्रवर्ग- -वर्ग. वीथी ३८

a) = ४स । b) उप. = ५५वीजरोस- (तु धमा) । c) वैष्ट ३६ । d) सकृत्- इति पाठ । e) = सकृत् । f) पाणि ४ २३५२ । d । g) पाठ ? तु सत्र आपथी २०, १०, ५ । h) स इति पाठ ? नलि शोधः । i) उप इत् । j) = ३स । k) = सन्नेय । मयर्थे यत् उरस (पा ४४, ११४) । l) स कुलक्य इति जीस प्रष्ट । m) उप = इष्टिवा । n) उप अर्थ ? । o) सकृत्, शब्दो इत्यस्य स्थाने वषा वाथी २, १२, ९ वीथी २८, २, ५८ ऋतोऽक्तौ इति पाणि । p) तु वीथ । q) ३ १४५ छिन्नेन इति नेष्टम् ।

४३ ८, १२, १५, २६, ३३ १३
 सकृत् प्रसूता- -सा अप ६९, ५, १
 सकृत्-फलीकृत- -सात् बाधौ १,
 २, ३, ६, दाए ३, ५, ३
 सकृत्-रुद्र(< >)दा- -दाभि. विप
 ६२, १.
 सकृद्-भगिन्युत- -रत्न^१ वीथी
 १४, १२ २४, वैथी १५, ६: ५,
 द्विथी ८, ३, ३०
 सकृद्-अनन्त- -सम् माधौ १, ३, ५,
 २०.
 सकृद्-आदिच्छ, जा- -सम् आपधौ
 १, ७, ३, ११, १०, १३, वीथी,
 -अस्य वीथी २०, २१, ४, १६,
 बाधौ १, २, ३, ४, ७, -आत् शाधौ
 ४, ५, १०, द्विथी २, ७, ६२,
 वाएउ ३९: ११, -आभि बाधौ
 ४, १, ११, आपधौ १, ७, ४,
 -आम् वाए १८, १, -स्ये आपधौ
 १, ५, १, द्विथी २, ७, २३,
 -सेन आपधौ १ ७, १३, भाधौ
 १, ७, ८, द्विथी २, ७, २०,
 -स्ये आधौ २, ६: १०
 सकृदाभिच्छ-वर्द्धित- -द्विप वैप
 ४, ५ २, -द्विपा वैप ४, ५
 ७, -द्विपि वैप ४, ६: ३
 सकृद् इत्या- -ग्याम् मीस् ११,
 १, ६२
 सकृदिषवा-भ्रुति-व्यतिक्रम-
 -न मीस् ११, १, ६३.^८
 सकृद्-उ(क >)का- -कागम्
 माधौ ६ १, ६, १५
 सकृद्-उक्ति-उस्()वैथीका ११३

१७०
 सकृद्-उपहत- -नेन वीथी ९, ६
 २२, वैथी १३, १ ३
 सकृद्-उपहित- -गामि वीथी २५,
 १६: ७.
 सकृद्-गृहीत- -सा^१ बाधौ १, ८,
 ४५, -सम् दाए ३, २, ३, ५, ३,
 वीथी २५, २७, २७, ३०, -सेन
 द्विथी ३, ८, १७.
 सकृद्-द्वानदान- -रत्न मीस् ७,
 १, २३.
 सकृद्-धि(< हि >)कृत^१- -सेन जेथी
 ११: १२
 सकृद्दिकृषो(उ उ)त्पाद-रत्न-
 -ग्यात् निम् २, ७ ११, १६.
 सकृद् धु(< हु >)त्- -सात् माधौ २,
 ४, १, २१, बाधौ १३८.
 सकृद् भक्षित- -ग्यात् आपधौ १२,
 २५, २२
 सकृद्-विद्याना(न-त्र)धे- -स्यम्
 पावा ४, १, ८३
 सकृत् निगद^१- -दा निम् ६ ७
 ११
 सकृन्-मथित- -उ बाधौ ५, ८,
 १८^{११}
 सकृन्-मान- -सम् मीस् ११, ३, ६
 सकृन्-सत- -सम् बाधौ ४, ४, २.
 सकृन्-लोमन्^{१२}- (> साहज्यलोम-
 पा) पाव ४, २, ११०
 स^१-कृष्णाजिन- -न बाधौ ३
 १०१ ५
 सुसकेत^{१३}- -त वीथी ३, ३
 १८, द्विथी ३, ६, १७

रसकेत^१- > साकेतावन- -ना.
 वीथीध २७: १
 स^१-केश- -सम् वीथी १२, ६ ८,
 पाए २, १, २१, -शानि पाए
 २, १, १२
 स^१-केश-ना(>)वा^{१४}- -सात्
 गेए २, ५, ६, दाए १, ४, १३
 सक्त^१, सक्ति- प्रथ $\sqrt{\text{सत्}} \sqrt{\text{क्त्}}$
 सक्तु^१- पाठ १, ६९, पा २, ४, ३१,
 ४, ४, १०३, ५, १, १०१, २, १७,
 -सत्. बाधौ ११३^१, बाधुधौ
 ४, ९६. ४, द्वि १, १३, १२,
 अप, -क्तु. ना ४, १०^१, -क्तुमि^१
 काधौ ९, ६, १३, आपधौ १२,
 १४, १५, २०, १०, ६४४, वीथी,
 -क्तुम् वीथी २८, १३: ३,
 ना ४, १०^१, -क्तुप काए
 ५६, १, माए २, १७, १, -क्तु
 आपधौ ८, १४, १४^१, १०,
 १६, १३४४, १३, २४, १६^१,
 बाधौ, -क्तुनाम् आपधौ १३,
 ५, ११, द्विथी २३, १, ८, वाए.
 साक्तुफ- पा ४, ४, १०३, ५,
 १, १०१,
 सक्तु कल्प- -ने वीथी २०, २५
 १४
 सक्तु-वा(रक्त >)रिका- -का ना
 ६, ६
 सक्तु चर्मन्^१- -सग्नि वीथी १५,
 १६ ४
 सकृत्-धा(न >)नी- -नी वीथी
 १३६, १ -ग्यात् वीथी २३,
 ४३

a) पाठे वृ ३१५ ८ द. b) स्या अस्व <> के इति पाठे । c) असकृदिषवा भ्रुति इति हे पदे इति वेचलानन्द । d) सृ १ पाठे (हेतु विद्यापर सुप्रविगच्छिको निर्देश इति ?) । e) तु सत् निम् २, ७ ११ । f) वत् । g) सत्. माध २, ६, १, ६ सकृदुपगतितु इति पाठे । h) तु पाठ । i) = ४६-१ । j) = आदित्याऽयतन- । k) वैप १६ । l) = अपि विलेप । m) सप हस । n) स्या सज्जिनान सकृन् <> सत्तत्रज्ञलिम् इति पाठे । o) वृ १०३७ ७ द ।

सक्तु-पान- नम् वीथी २, ९ : १६ ;
 सुथप ८६ : ४.
 सक्तु-मन्थ- न्यम् चरा १३, ३ ;
 २४, ७.
 सक्तु-मांसौ(ग-सो)दन*-(>साक्तु-
 मांसौदधिक- पा.) पाग ५, १,
 १०१.
 सक्तु-ल- वा ५, २, १७.
 सक्तु-क्षेप- न्यम् पाग २, १४, १८ ;
 २२ ; ३, २, ४.
 सक्तु-धी* -धीः ध्रुवाय ३, ३१.
 सक्तु-सिन्धु*-(>साक्तुसिन्धु-
 ण्यधक- पा.) पाग ४, २,
 १३३ ; १३४.
 सक्तु-होम- नस्य वीथी १४, १३ ;
 १४ ; २०, ३१ : २४ ; -मान्
 वीथी २०, ३१ : २४ ; द्राघी
 १३, ४, ४ ; साथी ५, ४, १० ;
 -माय वीथी ४, १ : ६ ; -मे
 धावथी १७, २३, ११ ; वीथी
 १९, ७ : १० ; हिथी ; -मेन
 वीथी १७, ३८ : १६ ; २०,
 ३१ : २५.
 सक्तु(स्तु-उ)दक- न्यति थप ३६,
 २, ६.
 सक्तुप(स्तु-अ)अलि- लिम् माथी
 २, ५, ५, १९०.
 सक्तुया ✓सक्तु द.
 सक्तुयम्* -न्यनः गोष्ट ४, १, ४ ; २,
 १२ ; द्राष्ट ३, ४, १५ ; ५, ४ ;

-कृपा शीथी १२, २४, २१ ; साथी
 ९, १०, ६१ ; याथि २, १४१^० ;
 -कृपी* साथी ८, ८, २९६.
 सक्थि* - पाठ ३, १५४ ; पाग ५,
 २, १७६ ; -क्थि आथी १२, ९,
 ५ ; हिथी १५, ८, २३३ ; निम्
 ३, १२ : ३ ; गोष्ट ; -क्थिनी
 आपथी ९, १९, ४ ; वीथी ९,
 १५ : ३७×४ ; वैथी ; निम् २, ६ :
 २८^१ ; गौरी २, ७, २६६^१ ; -कथीनि
 या ९, २०.
 सक्थी* - न्यथोः आपथी १५,
 १५, १ ; २०, १३, १२ ; १८, ४१^१ ;
 हिथी १४, ४, १०^१ ; वीथी ;
 वंताथी ३६, ३०^१ ; -कथी
 आथी २, १०, १४^१ ; आपथी
 १५, १९, ४ ; वीथी.
 सक्थ- न्यम् पा ६, २, १९८.
 सक्थि-सीदन- न्यम् वैष्ट ३, १० : १.
 सक्थि-ल- वा ५, २, १७.
 सक्थ्य(क्थि-अ)अम् - न्योः पा ५,
 ४, ११३.
 सक्त-क-यकार-पर- २स- द.
 सक्त-कतु* - न्यवः आथी ३, ८, १ ;
 -त् वीथ ५, १.
 ✓सक्त, सक्षति निघ २, १४१.
 सक्त- ✓सक्त द.
 सक्त-क्षण-स-क्षण-क- पाग ५, ४,
 १५१^०.
 सक्तणि- ✓सक्त द.

सक्त-क्षय- न्यः आपथी ६, २८,
 ११ ; वीथी १४, १९ ; ३८ ; हिथी
 ३, ८, १०.
 सक्त-क्षामका(प>) पा* - न्यम्
 वीथी ६, १२ : ३ ; ८, २१ : ३ ;
 -यापाम् वीथी २३, २५ : १ ;
 वैथी १६, २७ : ६.
 सक्त-क्षीर-रा- राः थप ६५, ३, ५
 -रात् वीथ १, ८, १९ ; राष्ट १,
 १३, ६ ; -रंण शीथी ४, १५, ८.
 सक्षीर-रथि* - न्यवः आपथी २३,
 २, १८ ; हिथी १७, १, ३५ ;
 साथी ८, ३, १४ ; -रथि-
 काथी २२, ३, ३६ ; वीथी
 २७ : ८^१.
 सक्त-खड्ग- न्यः थप ११, २, १.
 सक्त-खन्* - न्यः शीथी ६, ८, १२,
 माथी २, ५, १, २२.
 सखाय* - न्यानाम् वाष्ट १५, ११.
 सखि, खी* - पाठ ४, १३० ; वा
 ४, १, ६२ ; -खा सक्तथी १,
 ५, ७^१ ; ३, ३, १×४ ; शीथी
 आपथी १, ३, १४^१ ; वाष्ट १,
 ५, १९१^० ; सक्तथी १, ८, २८^१, ३
 १, २९^१ ; सक्तथी १, १४, ६^१ ; २,
 २, ११^१ ; -खायः आथी ४,
 १३ ; ७^१ ; सक्तथी ६, ४, ५
 २३, ९, १×४ ; आपथी १०, २३,
 ११^१ ; वीथी ; -सक्तथः आथी
 ७, ८, २^१ ; ८, १२, १० ; शीथी

०) वृ. पागम. । १) वैप १ द. । २) पाथि. वृ २४८९ II द. । ३) पाथि. वृ १४४८ III द. ।

- ०) कृपी इति पाठः ? अनि. शोधः ।
- १) पूर्व्व इति पाठः ? अनि. शोधः । दक्षिणपूर्व्व सक्थि इत्यस्य स्थाने उप. आपथी ९, १९, १२ दक्षिण पूर्व्वपाठ इति, वैथी २०, ३८ : ३ दक्षिणैव पूर्व्वसक्थिना इति च पाथि. ।
- २) पाथि. वैप १, ८९१ I परि. च द. ।
- ३) सक्तथी इति II ०. ।
- ४) = ४५ ।
- ५) लु. पाथि. च वैप २, ३३६. द. ।
- ६) विप. (चरुपाटी). ।
- ७) वस. ।
- ८) "हु" इति पाठः वाथि. इ. ।
- ९) = सक्तु- (वृ. वैप १). ।
- १०) पाथि. वैप १, १०१० d द. ।
- ११) = सक्ति- ।
- १२) राप. सखा (मंता १, २, १३ च) <> सखायः (तैत्ति ३, ५, ५, ११ च) <> सखायी <> सखे इति पाथि. ।
- १३) पाथि. वैप २, ३६. स्वसा मंता १, ६, १७ टि. द. ।

-स्त्रायम् ऋआधौ ४,७, ४; ६, १२, २; शीधौ; -खाथा या १४, ३०६; -ऋआधौ श्रापमं १, ३, १४^०; आमिष्ट १, ५, ४: ४५^०; ६, ३: ३४; भाष्ट १, १७, ६^०; द्विष्ट १, २१, २^०; -ऋतिभिः आधौ ४, ११, ६; ९, ३, २२; शीधौ; -ऋमिभ्यः आधौ ७, २८, २; शीधौ ३, ८: ३१; वैधौ; द्राधौ ४, ११^०; लाधौ २, ३, १०^०; -रिम् वीवि ३, ३, १; -रौ गाय १४, २३^०; -ऋतीन् आधौ ४, ५, ६; शीधौ ५, ८, ३; शीधौ; -खीनाम् कार्थी २२, ११, ११; ऋआधौ १२, २०, ८; १७, ७, ८; शीधौ; -खीभिः श्रुदे ७, १५१; -खीभ्यः गाय १, १२, ४^०; -खीम् सुधप ८७ : ४; बाध २०, १६; द्विष्ट १, ६, २५; -ऋ-से आधौ ४, ७, ४; शीधौ ५, १०, २४; ९, २८, १२; पाष्ट १, ८, १^०; श्रुदे; -ख्या कौष्ट १०८, २; अत्राय २, ७; या ६, ४^०; भाशि; -ख्याः विध ३६, ७; -स्युः या ११, २९^०; पा ७, १, ९२; पावा ७, १, १; अत्रा ३, ४, १; -ऋत्ये माधौ २, ४, १, ४५, वैताधौ १९, १८; -षयोः कार्थी २२ ११, १२; शीधौ १८, ३५ : ११.

सप्तम^० -> ऋव-भरज- ऋम् कार्थी २५, १४, १८.

सति-चारिद्- -रिभ्यः निह् ६, ११ : ३३.

सति-न्य- -न्यात् श्रुदे ४, २; ७७;

-खेन श्रुदे ४, ७५.

सति-पति- -तिभ्याम् पावा ७, २, ११९.

सति-पती- -नीः आमिष्ट २, ६, ३ : ५३; शीध २, ५, २९; -ऋमीभ्यः आमिष्ट ३, ११, ४ : ३१; शीष्ट २, ११, ३४.

सति-मत्- -मान् द्विधौ ४, ३, १.

सति-मती^०- -ती निह् ८, ६: २९.

सति-वधू- -धूः शीध २, २, ६४.

सति-न्यअनाद्य (दि-अ) धे- -धेः पावा ७, २, १३५.

✓सतीय, सतीकते श्रुत्रा ९, १६.

सती-सयोनि-सगोत्रा-शिष्य-मायां- -मास्तु गीध २३, १२.

✓सत्य^०

सत्य- पा ५, १, १२६; -त्यम् आधौ ९, ११, २०^०; शीधौ १५, ८, २१^०; आपधौ; पा ५, २, २२; -त्यस्य पाष्ट २, ११, १२^०; -ऋत्यम् आधौ १०, २३, १^०; शीधौ ६, ११ : १७; आपमं १, ३, १४^०; आमिष्ट १, ५, ४ : ४५^०; ४६^०; शीष्ट १, १, २९^०; भाष्ट १, १७ : ७^०; गाय १४, २३^०; द्विष्ट १, २१, २^०; -सवादि आधौ ६, १२, १२; शीधौ ८, १०, १; आपधौ १३, १८, २^०; २१, ५, १२; शीधौ; -त्पाय कत्रा ८, ४७^०; -ऋत्ये शीधौ १७, ४० : २; आपमं २, ७, १; १५, २०; शीष्ट; -त्येन श्रुदे ३, २; -त्येभ्यः पाष्ट ३, ७, २.

सत्य-विसर्जन^०- -नम् वैधौ १६,

२२ : ६^०; द्विधौ १०, ५, १९.

सत्य-विसर्जन^०- -नम् शीधौ ८, १८ : ५^०.

सत्यो(क्य-उ)क्य-मुक्य-पर्जनम् श्रुत्रा ४, १६७.

सत्या(रि-आ)दि- -हीन् विध ६७, ३८.

२सखि- (>साखेय- पा.) पाग ४, २, ८०.

सखिदत्त- (>साखिदत्तेय- पा.) पाग ४, २, ८०.

स^०-खिल- -ले श्रुत्रा १, १.

सखीनि^०- -नयः शीधौ १९ : १.

स^०-सुर,रा- -नम् कौष्ट १३८, ९; वाप २८, २०; विध ८७, ८; -रम् आपधौ १७, २६, १४; द्विधौ १७, १, १२.

स^०-सुरि(क>)का- -कम् आपधौ १७, २६, १४; द्विधौ १७, १, १३^०.

✓सग् पावा. भा. पट. संवरणे.

स^०-भाज,पा- -ऋणः आधौ ५, १४, २; शीधौ ७, १९, ४; आपधौ ५, १०, ३४; द्विधौ; -णम् अष्ट ३६, १, ६; ११; शीष्ट ३, ८, २; -भा अष्ट ४८, ११६^०; आमिष्ट १, २, २ : १; -भावे शीष्ट २, ८ : १३;

स^०-गणा(क-अ)धि(प>)पा- -पाः अष्ट १, १, १३.

स^०-गति- -तिः पा ८, १, ६८, पावा ८, १, ५७.

सगति-ग्रहण- -णम् पावा ८, १, १; ६८.

a) धामि. पृ २४९० s द. । b) धामि. वैप १ सुखिभ्यः कौ २, ११७८ टि. द. । c) तद्वेदमीयः ऋयः प्र. ठसं. (पा ४, १, ८५) । d) = ऋध्- (क ९, ९८, १२) । e) वा १४, १० परागृह्यः द. । f) सगा. आधौ ६, १२, १२ प्रत्य. सत्यस्य इति धामि । g) सगा. मंत्रा १, २, १३ सत्यस्य इति धामि. । h) = यन्त्र- । यत्न. । i) परापरं धामि. । j) = अत्त- । k) व्ययः । l) 'री' इति पाठः ? धामि. शोषः (तु. आपधौ) ।

स^१-गन्धर्व-पुरोगम^१- मा अप
 ६४, ४, २
 स^१-गन्धर्वा(र्व-अ)प्तरस्क^१-
 -स्कार्य आपम २, ५, १०, वायु
 ३ ९, १
 स^१-गन्धर्वा(र्व-अ)प्तरो-
 जनस्क^१- नकस्य काण ४१,
 २३
 सगर(वशा)^१- पाठभो २, ३, ३९,
 -पर शाश्री ६, १२, १४, जैश्री
 १३ २२, आपम २, १७, २१,
 अय ४८, ९८, निप १, ३, ६,
 या १४, ११, -पू-रा आश्री
 ५, ३, १५, शाश्री ६, १३, १३,
 काश्री, -पूरेण आश्री ४, १२, २,
 ५, ३, १५, शाश्री ६ १३, १, १,
 वैशाश्री १८, ८, आश्री २, ३,
 ५ २२, -रै जैश्री १३ २५, १
 स^१मर्ष^१-> ऋ- पा ४, ४,
 ११४, -पू-र्व आश्री ३ १, १,
 शाश्री ५, १७, २, नाश्री ५, २,
 १, ७, कथा २ ४१
 रस^१-भा(र्व->)र्मा- भाषा वैश ४,
 ४ १
 स^१-गाय(र्व->)त्रा- त्राम् वप ३,
 ८, १९
 स^१गु^१- ग्व आपश्री २३ १२, १, ३,
 -गु आपश्री १४, २९, १,
 स^१गुड-मध्य^१- क्षयस्य वैश ३,
 २१ १३
 स^१-गुडा(र्व-अ)ज्य सुवर्ष
 शकल^१- रम् अय १२, १, ५

स^१-गुण- -गम् मीस् १०, ४, ३४,
 -गाम् आश्री १२, ४, १८,
 -णे वप ७०, १२, ४, वैश १, ११,
 १४, -जेन मीस् १०, ४, २४
 सागुपय- -व्यम् अप ७०, १२,
 ४
 सगुण स्थान- ने काश्री ६, ७, २३
 स^१-गृह- -ह. आपश्री ६, २८, १,
 वीश्री १४ २१- २४, भाश्री ६,
 ६, ५, वैश्री २, ११ १, हिश्री
 ३ ८, २,
 स^१-गृहपतिक- -का शाश्री १७,
 १७, ४
 स^१गोत्र, प्रा- पा ६, ३, ८५, -त्र
 वीश्री १८, ३२ १५, ३३
 १३, लाश्री ८, २, ११, वैश ७,
 १ ६, ७, वाप ३०२, -त्रम् वीश्री
 ३, १, ५, -त्रस्य वीश्री २४, ३२
 ४, -त्रा गीपि १, ७, १९,
 -त्राणम् वीश्री ३ १३, ८, -त्रात्
 गीप १५, १९, -त्राम् आपश्री
 २२, १३, २, हिश्री १७, ५
 २५, वीश्री ५४ ५, वीश २,
 १, ३८, विष २४, ९, -त्राय
 शाश्री १४, १६, ८, काश्री २२,
 ८, २०, आपश्री २२, ९, १८,
 काश्री, २९ १७, हिश्री १७,
 ४, १२, कौस् ४६ ३७ आपय
 २, ११, १५, हिष २, ४, ३०
 -त्रायाः विष ३६ ७
 सगोत्र मिथुन- न गीपि १, ४, ४
 सगोत्र शिष्य-सब्रह्मचारिन्- रिग.

अंश २९३
 सगोत्र-स्वानो(र्व->)शा- -गाम्
 आपय २, २७, २, हिष २, ५, २२
 सगोत्र(त्रा ष)भिगामिन्- मी वप
 ३७८
 स^१गौरीधित- -तानि विन् १०,
 ८ २६
 स^१सगिन्- -विष शुभ ५ ४५
 -विषम् या ९, ४३, ६
 स^१सगम्- -मे काश्री ७, ८, १६,
 शुभ १, २७७
 स^१ग्रह- -रम् शाश्री १८ ११,
 ६, आपश्री ५ २०, १० १४,
 ७, ७, १, २, ४, भाश्री, आश्री
 १, ७, १० ११, २, ७, ९
 २५, २, -द्वा आपश्री १४
 १५, ३, हिश्री १०, ७, १५,
 -पू-हाणि आश्री २, ६, ३ २
 ४, ७, वीश्री २ ५, १६ १८
 -द्वात् वीश्री २० ५ २४,
 २३, १५ १, हिश्री १०, ७,
 १६, -हाय आपश्री २१, १०,
 ३, -है आश्री ३ ७ ३ १०,
 १०, ४ १९, वीश्री २, ३, ३
 हिपि १९ ७
 स ग्रहण- रस- द
 स^१सच्(वशा), पाथा भा व
 दिवायाम्, स^१सन्वासम् आपश्री
 १२, २४, ७, भाश्री २, ४, १,
 ३३, हिश्री ८, २, १९, भासि ३८
 स घटा^१- (> सापटिक- पा)व
 स^१घट्ट-> स घाट- दि द

a) = ४स-1 b) उग कत । c) उप इत् । d) विष (अति) । वप इत् > वत् ।
 जनस्- = जन-1 e) वैप १ इ । f) <सह । g) सय आपश्री ११, १५, १ लाश्री २ ३, ६ सदस्य इति
 पाणे । h) = वन्तरिक्ष- । i) परस्मै पाणे । j) = ३स । k) क्त । l) <गो- (हु पावा ६, ३, ८२) ।
 म्) शय-> शवा इति पाठ (हु सस्त्रुत् सूची) वनि शोध (हु ता २५, ८, २) । m) सय वाश्री १ ५, ४, ४
 सहस्रह- इति पाणे । o) पापि वैप १ २५५५५-> रस पाठ २, ६ टि द । p) मचित् वा मिति ।
 q) शृ- इति पाठ वनि शोध (सप्र तेषा ३, १, १ आपश्री प्रय च) । r) हु पायम ।

सघन^१- वा शीघ्र ८, ११ : ९.
 १४, ६ : ७; वैश्री १६, १२ : २२;
 द्विधौ १०, ५, ७; माघि ३८.
 स^२घृत- नम् शेष २१५; विष
 ९०, २७.
 सघृत-नायस- सेनश्रीवि२, १०, १.
 स^३घोष- न्. ऋष ६१, १, १३;
 -पाः अप ६४, ३, ४.
 सघ्वात्म^४ आप्तौ १, ६, ३; १५,
 ४, १२; ५, ४; ६, ११; ७, २;
 शीघ्री.
 ससंघट- पा ५, २, २९.
 संसंघट- (> ष्टिक- ष्टिन्- पा.)
 पाण ४, ३, ८०.^२
 सङ्घण- पाठमौ २, ३, ७.
 संसंघट- (> संघट-
 ष्टिक- पा.) पाण ४, ४, १०२.
 संसंघट- सनकन्यव माण २, ४२;
 शीघ्र १, ५, ७९.
 संसंघट- (> शो(र-उ)पहित- नाः
 शुभ १, ८.
 संसंघट- (> शोय- पा.) पाण ४,
 १, १०.
 संसंघट- संसंघट-
 सं-कार्य- शेष- संसंघट-
 संसंघट- संसंघट- (> ष्टिन्-
 पा.) पाण ५, २, ८८.
 संसंघट- (> संसंघट- पा.) पाण
 ४, २, ७५.
 संसंघट- (ष्य/कृ पा.) पाण १, ४,
 ६९.

संकला^१- (> संक(उक)> लिका-
 पा.) पाण ५, ४, ३.
 संकल्प- प्रम्. संसंघट- द.
 संसंघट- संकल्प- माश्री ३, १,
 ३१५.
 संसंघट- पाठ २, २१; पाण ३,
 ४, ७४;^२ -कः^३ शुभ ४, ४७;
 ५२; -कम् शीघ्र ८६, १८.
 संसंघट- द्वा आ ४८, १०, ५; निय
 २, १७; -द्वाः या ९, १४५.
 संसंघट- संकल्पयति आपण ६,
 ६; संसंघटयति आपण १, ७,
 १०; पाण २६, ६; शीघ्र.
 संसंघट- नाः शेषौ १४, १० :
 १३; वैश्री ११, १३; १६;
 शीघ्र ८२, ११.
 संसंघट- संसंघट- नामि
 माश्री २, १, १, १०.
 संसंघट- द्वा^४ - रैः माश्री
 २, ३, ६, १३.
 संसंघट- संसंघट- नम्
 आप्तौ ११, ७, १०; १०,
 १४; द्विधौ ७, ७, १३; -नस्य
 आप्तौ ११, ६, १०; -नैम आप्तौ
 १६, ७, ४; शीघ्री ७, ८ : ३३,
 ८, २ : ३०; ११ : १८.
 संसंघट- पाण ४, २, ८०.
 संसंघट- पा ४, २, ८०; ष्टि ६५
 संसंघट- संसंघट-
 संसंघट- (< शीघ्र- > संसंघट-
 यन्- यन् शेष ३८१; वृदे ५,

१४१.
 संसंघट- वैष २, १०, ६.
 संसंघट- शौ शेष २१०.
 संसंघट- (> संसंघट-
 (त-अ)प्र-इस्त- न्वाः वाप ६,
 २५.
 संसंघट- याशि २, ६८.
 संसंघट- न्च पाठा ६, ४, १४४.
 संसंघट- (> संसंघट- पा.)
 पाण ४, ३, १३.
 संसंघट- संसंघट- नम् वाप
 ६८, १, ४६.
 संसंघट- (त-अ)पहित- वैः समाशि-
 ष्टि- श्वाद्- गनुन्यव- मो-
 जन- न्नेष शीघ्र १६, ३५.
 संसंघट- पाठमौ २, ३, २१;
 -कः^५ आप्तौ १, ३, २२;
 द्विधौ १५, १, ७१; ष्टम २,
 १०, १८; वृदे २, ६१; -काय
 आप्तौ १, ३, २२; माश्री १, ५,
 १८; द्विधौ १५, १, ७०; -कः^६
 आप्तौ १, ३, २२; १५, १,
 ७१.
 संसंघट- समहणवन् या ६, १५५.
 संसंघट- (> संसंघट-
 रिका- काय आपण ३, १२.
 संसंघट- (पा.)^७ - पाण ४, १, १०५;
 -तया^८ शीघ्र २३ : १; ४;
 निय ४, ८ : ५; -ति निय ८,
 ६ : १४;^९ -कृतिः आप्तौ १२,
 २३, ८; शीघ्री ७, १४ : १२;

a) वैष १ द.। b) = यव-। c) लैमि. < ऋष्यात्म (तु. वैष १, १०१५)। d) पाठ.। उप. <
 संसंघट- नम् प्र.। e) तु. आका.। f) तु. वापण.। g) पाठे. वै १ संसंघट- वै १, ११ दि. द.।
 h) तु. पाठि.। i) = यव.। j) स्वार्थे ष्य प्र. (तु. भाष्यम् द्विधौ ७, ७, २३)। k) का.। l) वैष १, ११५
 ० द.। m) इत्.। संसंघट- = प्रामाण्यवन्, उपाहित- = अश्विदाह- [तु. मत्तः ४, ११८]। n) = संसंघट-।
 o) = सवा. तैमा २, ४, १। ष्टि ४, १४, १७ तु संसंघट- शीघ्र पाठे.। p) उपा. शी १२, २, १३ संसंघट- इति पाठे.।
 q) नाप. (द्विवाहनार्थं) न्यन्-विशेष-। r) वृदु. < संसंघट-। s) = वाग-निशेष-। t) पाठे.
 वैष १ संसंघटिः मा ७, १४ दि. द.।

८, ४ १७^a, द्विधौ, निम्
२,५ : ११^b; छत्र ४, १८८^b,
अथ, पि ४,३^b, -तिन चाधौ
७,६,१^c, १,१२

संकृति^d -से. आपधौ ५,
१०,११.

सांकृष्य^e - पा ४, १,१०५,
-०रष आधौ १२, १२, ५,
आपधौ २४, १०, ८; धौधौप्र,
-रयस्य तैमा ८, २१, १०,२१,
१६,१६; -यानाम् वैध ४,३,७.
संकृति-वृत्ति-माप- -याणाम्
आपधौ २४,१०,८^o.

संकृति-वृत्तिमाप-तण्डिन्- -ण्डि-
नाम् द्विधौ २१,३,१४^o.

संकृति-वृत्तिमाप-तण्डि दाम्-
धौवाग- -वाणाम् आधौ १२,
१२,५^o

संकृति प्रभृत् (ति-क) ध्वं-
-ध्वम् उनिस् ६. २९

संकृति वत् आपधौ २४, १०, ८,
वौधौप्र २३ : ५, द्विधौ

सं√कृत् (छिदने) > सं कृ (त) चा-
-चाम् बाधुधौ ३,७६. २०.

सं कृष्य बाधुधौ ३,४४ १८.

सकृत्य^f - (> साकृष्यायन- पा)
पाग ४,१,१९

सं√कृप्, सकर्षति काधौ १६, ८,
१५, कौत् २५,१५

स कर्ष- न्यं मोष्ट १,५, ७, -पात्
निम् ६,९ १९

सं-कर्षण- पाग ३,१, १३४, -णाम्
शंघ ११६ ६५^o, -णाम् विध
६७,२^o.

सकृष्ट-> 'कृ-कार^g - लौ निम्

६,१ : १५.

संकृष्ट-तर- -तौ काधौ १८,४,
१८.

सं-कृष्य आपधौ ५, ५, १०, ९, १६,
१५^h x x, द्विधौ १५,४, ४८^h १^h.

सं√कृ (विधेये)ⁱ, षंसम्...कित्तु
आधौ १,१०, ८, शोधौ ९,२८,
३, षंसंरि आपधौ १७,८,७,
वैधौ १९,५ : ५३.

संकीर्षते शंघ ३४०, संकीर्षन्ते
शंघ ३३३.

३सं-कर^j - र. षप ७२,४,१, -रम्
वैधौ २०८, वाशि २, ८०,
-रात् षप १,४६,६, -रे वाष
२५,१२; वौध २,२, ७१; विध
१६,१७, -रेण वैध ३,१२,३

संकर-संर- -रा विध १६,७

संररी√कृ > संररी-करण-
-णम् विध ३२, १^o, -णेषु विध
३३,४

सं-कीर्ष- > षं योनि^k - नय
वौध १,१,२९.

सं√कृलृप्, सकृत्पावद्वै आपधौ १,३,
१४^l, षंसकृष्येणाम् माधौ ६
१,५,१०, माधौ.

संकल्पयते वौधौ २, १ ११,
कौपि १, १, २७^l, सकल्पयति
अप १०, १, १५, वैष्ट २,१५ :
१५, ६, १. ९, सकल्पयत
माधौ १,५,३, १३, सकल्पयन्ते
बाधुधौ ४, १० ४, आशिष्ट ३,
१,१. ५, वौपि, संकल्पयति
आपधौ ७,२८, ८^l, सकल्पया-
मति कौम् १०२, २^o, सकल्पयेत्
वैधौ १,८ ८, अर १०,१,१५,

सं-कल्पयत्- -णम् वैताधौ ३१, ४,
आपध १,५,८, द्विध १, ३, ८,
वृष्टे १, ५४.

सं-कल्पित- (> तिन्- पा) पाग
५ २, ८८.

सं-कल्प्य आशिष्ट २, ३, ५ : २, ३ ३,
१. २, ६, वैष्ट

√सङ्केत् पाधा पुरा उभ आधनये
सं-कोच- स√उत् र

सं√कन्द्, सम् चकद, सम्(चकद)
आधौ १२, १९, ५^l

सक-दयति शोधौ ३, ४, ३, ६
स कन्दन- पाग ३, १, १३४, ५,

वैध २,२,६

संकल्पयां√कृ, संकल्पयात्के
या २, ८.

सं कल्प- न्य. काधौसं ४ : १,५
३ x x, वौधौ २, ७ १५ x x, वाप,
-रयम् आशिष्ट २, १, ५ ६,
-वनेन आपध १, २९, ३, द्विप
१, ७, ५१.

संकल्प ज्योतिस्^m - ति हु २५,
१, ३

संकल्प वत्- -यान् षप ७७,
११, ४.

संकल्पयती- -तीम् वौधौ
१९, १०. ४९

संकल्प-विकृत्- -त शोधौ १४,
११, २

सकल्प सिद्धि- -द्वय आपध २,
२३, ७, द्विप २, ५, १६०, -दि
आपध २, २४, १४, द्विप २, ५,
१७८.

संकल्प(ह आ)दि- -दि काधौत
५ : १, ५, ११, १५

सं-कल्पयत्- -णम् वैताधौ ३१, ४,
आपध १,५,८, द्विध १, ३, ८,
वृष्टे १, ५४.

सं-कल्पित- (> तिन्- पा) पाग
५ २, ८८.

सं-कल्प्य आशिष्ट २, ३, ५ : २, ३ ३,
१. २, ६, वैष्ट

√सङ्केत् पाधा पुरा उभ आधनये
सं-कोच- स√उत् र

सं√कन्द्, सम् चकद, सम्(चकद)
आधौ १२, १९, ५^l

सक-दयति शोधौ ३, ४, ३, ६
स कन्दन- पाग ३, १, १३४, ५,

a) पाणि पृ २४९३ ड ४ । b) = कन्दो-विशेष- । c) = साम विशेष- । d) = षप ।

e) परस्मै पाणे । f) यति युक्त्य- इति न पागम ३ । g) यध. । h) पाणि पृ १४९३ ड ४ ।

i) वा ९, १४ परासृष्ट ३ । j) भाप ।

७४, -न प्रप्र २, ४१, गुप्रा
४, ६५, -नमेन अत्र १९, १३,
वनिम् ७. ३७

संक्रम, सक्रमते माधि ३, ६,
सक्रामति आपथी ३, १६, ९,
संक्रामस्तु आपथी २०, ११, ७,
वीथी १५, १८ १४, ३२ ४,
३६ १०

सं क्राम- पाग २, ४, ३१^a, ५, १,
१०१^b, -म वैताथी २७, २७^c,
गुप्रा ४, १६८, -मम् वैताथी
२७, २७^c, जेय १, १९ २६,
-माय वैताथी २७, २७^c, -मे
वीथ ३, ९, ३६, खाण ४, ७, ४१,
आमिष्ट २, ७, ६ २२, गुप्रा,
-मेयु गुप्रा ४, १९७

साक्रमिक- पा ५, १, १०१

सक्रम-द्वाद्वाह- ए छुम् ३,
१२-१, १३ १०, -द्दे काथी
२४, ७, १२

सक्रम यत्- श. वैताथी ४६,
२२.

सं क्रमण- न आपथी ५, १४,
१३^b, माथी ५८, १०^b, -गम्
आपथी ६, ९, ४, दिथी ३, ४,
३१^b, ७, ६१, चात्र १२ ३९^c
संक्रामण वम- मम् माथी १, ५,
४, १०१^d

सं क्रमण(ख>)ण- आ आपथी
१६, ३०, १, वीथी १८, २० ४५,
दिथी ११, ८, ४

सं क्रमण- नि आपथी १६
३०, १, वीथी १८, २ ४६, दिथी
११, ८, ४, वागुठ ४३ ६९
संक्रान्ति द्वय- वय् वागुठ ४३
६

सं क्राम- पाग ४, ४, १०२, -मेऽ-मं
आपथी ३, १६, ८^c, दिथी २
६, ५०, -नमेन आपम २, २२,
६, माय २, २७. १५, दिष्ट १,
१४, २

साक्रामिक- पा ४ ४, १०२

सं-क्राम(ख>)णी- णी वागु १८,
२^c

स क्रामन्- मम् वीथी १६, ३ १५,
माधि १, ६, १८

संक्रामन्- णी आपथी १६,
३०, १, वीथी १८, २ ४५,
दिथी ११, ८, ४

संक्रामिष्याम् अत्रय ४, २^c

संक्रमिद्

संक्रमिद्, सक्रोतवाम् अत्र ८, ८^c.

संक्रम् > स शालन- नम् आपथी
१ १३, १०, वीथी १, ३ २९,
१७ १९x४, माथी, -नेय वीथ
२, ११, ४६^a

सं-शालन वीथी ३, ८ २x४, दिथी,
दिष्ट २, १२, १०

संक्रमि(खे)> सं-शय- णे या १४,
७, ८

संक्रम(य प्रा)रह- डा अत्र
५२, ८, २

संक्रमि(निवासे), संस्रयेम दिथी ९,
५, ३७^a

संक्रमि वेताथी २४, १^a

संक्रमि, संस्रियति वाथी ३, १, २, २,
४, ३, ३८, वागु ६ २, ९

संक्रमि वेय २, २ २८

संक्रमि- स या ३, ९, -से अत्र
५०, ९, १.

संक्रमि आपथी १६, ४, ३, आमिष्ट
३, १, ३ १७^b.

संक्रमि- य वीथ ३, ३, २, -याद्
अत्र ३८, १, १

संक्रमि-नार्थ- गम् अत्र १२२

संक्रमि तत् () कत्र १, ४, ११,
अत्र २४, १, १०, राम ९८

संक्रमि > सं क्रुप वीथ २८, ३, २९,
१५, ३१, १७, ४९, २१

संक्रमि > सं-क्रुमिष- > ता(त अ)
वेत्- गम् अत्र ६४, ९, ४

संक्रमि > सं क्षाय वाथी ३, ११
५, माथी १, ६, ३, ४^b

संक्रमि^a

संक्रमि > सं क्रिय वाथी ३, ८८
१४, २१, २५

संक्रमि > सं-क्रुमि- ण्-द्वय.
अत्र २ १०, १४३

संक्रमि-न- न वीथ २, ५, ६,
-नम् वीथ २, ५, १^b.

संक्रमि- णे अत्र ४८, १०५^a।
द्वे ८, १३, निष्ट २, १७^a

संक्रमि, संस्रियत् सु २४ ३,

a) वु पागम । b) एषा मम (क ६ ३ व) <> अमम् (वाठ ७, १३ व) <> ममममम् इति पागे । c) अर्थे । d) पाठ २ संस्रियन् इति संस्रियं टि, एषा वै १, ४, १३ संस्रि दति, आपथी २, १६, १ अम् स्रह य इति च पागे । e) वा, यावा १ ३, २१ पराण्ट द । f) = जड- । g) एषा संस्रियेम (तेषां ३ ७, १२, १ च) <> संस्रियेम (वे २ ३९, २ च) इति पागे । h) पाठ १ तत्र दिष्ट २, १२, १० सशाय इति । i) वत् । j) वा दादे वृत्ति । k) तत्र आपथी ६, २८, ८ संस्रियन् इति पागे । l) वा १, ३, ९५ पराण्ट द । m) अत्र (वु वृत्तियन्) । n) तत्र आण्ट ३, ४, ४ चाण्ट ४, १०, ३ चाण्टा इति पागे । o) = तामन- । सु १ । < संस्रिया इति प्रायोभाद । p) वा ३, ३, ७ पराण्ट द ।

८, ४ १०^a, हिथौ, निम्
१,५ ११^b, मुत्र ४, १८८^b,
भाज, पि ४,३^b, -तिन लाथौ
७,६,१^c,९,१२

सकृति^d- ते थापथौ ५,
१०,११

साकृत्^e- पा ४, १,१०५,

-०थ थाथौ १२, ०२, ५,

आपथौ २४, १०, ८, बौधाय २३

-रथस्य तैसा ८, २१, २०, २१,
१६, १६, -स्यानाम् वैध ४, ३, ७

सकृति पूर्व-भाप- -पागाम्

आपथौ २४, १०, ८^o

सकृति-पूर्विभाप-नविदन्- पिड-

नाम् हिथौ २१, ३, १४^d

सकृति पूर्विभाप-नविदन् शम्भु

शैषण्य- -वानाम् आथौ १२,

११, ५^e

सकृति प्रभृषू (ति-ऊ) ५^f-

-थ्वम् डनित् ६ २१

सकृति वत् आपथौ २४, १०, ८,

बौधाय २३ ५, हिथौ

६, १०५
सकृत्-वर- नौ वाथौ १८, ४,
१८

स कृत्वा आपथौ ५, ५, १०, ९, १६,
१^g x x, हिथौ १५, ४, ४८^h x

सं/कृ (विशेषे)ⁱ, पुंसम् किरत्तु

आथौ १ १०, ८, शौथौ २, २८,

३, पुंसकिर आथौ १७, ८, ७,

वैथौ २९, ५ : ५३

सकीर्यते शेष ३४०, संकीर्यन्ते

शेष ३३३

इस-वर^j- -र आ ७२, ४, १, -रम्

शैति २०८, काशि २, ८०,

-रान् अप १, ४९, ६, -रे नाथ

२५, १२, वीध २, २, ७१, विथ

१६, १७, -रेण वैध ३, १२ ३

सकर-सर- -ना विथ १६, ७

सररी/कृ > सररी-वरण-

-णम् विथ ३९, १^k, -णेपु विथ

३३, ४

स कीर्य- > श्वं योजि^l- नय

वीध १ १, २१

सं/कृत्, सकृत्वावहे वायम १, ३,

१४^m, पुंसकृत्वेणाम् माथौ ६

१, ५ १०, थाथौ

सकृत्वायते वीथौ २, १ ११

गोपि १, १, २७ⁿ, सकृत्वायति

अप १०, १, १५, वैध २ १५

१५ ६, १ ९, सकृत्वायत

माथौ १, ५ ३, १३, सकृत्वायन्त

वाथुथौ ४, १० ४, आश्रित ३

१, १ ५, वीपि, सकृत्वायन्ति

आपथौ ७ २८, ८^o सरक्यया

ससि वीत् १०२ २^o, सकृत्वायेन्

वैथौ १ ८ ८ अप १० १, १५

वैध २, २, ६
सकृत्वाया/कृ, सकृत्वायावहे
या २, ८

स कृत्वा- -र वाथौ ४ १, ५

३ x x, वीथौ २, ७ १५ x x, तप

-रथम् आश्रित २, १, ५ ३

-रथेन आपथ १, २१ ३, हिथ

१, ५, ५९

सकृत्वा-उवोतिथ^o- -ति तु २५

१, ३

सकृत्वा वत्- -वान् अप ७०

११, ४

सकृत्वावती- तीम् वीथौ

१९, १० ४९

सकृत्वा विकृत्- -न थाथौ १४

११, २

सकृत्वा सिद्धि- -रथ आपथ २

२३, ७, हिथ २, ५, १६०, -दि

आपथ २, २४, १४, हिथ २५

१७८

सकृत्वा (र वा) दि- दि थाथौ

५ ३, ५, ११, १५

सकृत्वायत्- -र वीताथौ ३१, ४,

आपथ १, ५, ८, हिथ १ २, ८

वैध १, ५४

स कृत्वा- (> पतिद्- वा) अप

५ २ ८८

सकृत्वा आश्रित २, २, ५ ३ ३ १

१ ३, ६, वैध

सकृत्वा पाथा चुरा रथ आपथ

स-कोच- स/कृत् ६

स/कृत् सम् चक्रद्, सम् (चक्रद्)

आथौ १२ १९ ५^o

सकृत् दपति थाथौ ३ ४, ३ ६

सकृत् दन- पाग ३ १, ११४ ४,

स/कृत् (वेदने) > स कृ (त) > ता-

-नाम् वाथुथौ ३, ७६ २०

स कृत्वा थाथुथौ ३, ४४ १८

सकृत्वा^a- (> साकृत्वायन- पा)

पाग ४, १, ९९

स/कृत्, सकृत्वा थाथौ १६ ८

१५, वीत् २५, ३५

स कृत्वा- वं गोष्ठ १ ५, ७, -पति

निद् ६, ९ १९

स कृत्वा- पाग ३ १, १३४, -गम्

अप ११६ ६५^d, -गत् विथ

६७, २^e

सकृत्- > ७ काल^f- नौ निद्

a) पागे पृ २४९३ ङ द । b) = छन्दो निशय । c) = साम विशेष । d) = व्यप ।

e) पररथर पागे । f) वनि सुकृत्वा- इति च पागम द । g) वस । h) पागे पृ २४९३ ङ द ।

i) वा २, १४ परागृह द । j) भाप ।

७४; -नः प्रा २, ४१; ध्रुवा
 ४, ६५; -नैव अथ-१२, १३;
 उभिसु ७:३७.
 संक्रम-संक्रमते मासि ३, ६;
 संक्रमति आपथी ३, १६, ९;
 संक्रामतु आपथी २०, ११, ७;
 वीथी १५, १८: १४; ३२:४;
 ३६:१०.
 संक्रम-पाव २, ४, ३१^५; ५, १,
 १०^{१५}; -मा: वेताथी २७, २७^१;
 ध्रुवा ४, १६८; -मस वेताथी
 २७, २७^१; कैव १, १९:२६;
 -माव वेताथी २७, २७^१; -मे
 कौय ३, १, ३६; काय ४, ५, ४१;
 आसिप २, ७, ६:२२; ध्रुवा;
 -मेसु ध्रुवा ४, १९७.
 सांक्रमिक- वा ५, १, १०१.
 संक्रम-हादसाह- नः ध्रुव ३,
 १२:१; १३:१०; -दे काथी
 २४, ७, १२.
 संक्रम-यज्ञ- नः वेताथी ४३,
 २२.
 संक्रमण- नः आपथी ५, १४,
 १३^५; माथी ५, ८, १०^{१५}; -मम्
 आपथी ६, ९, ४; द्विथी ३, ४,
 ३१^५; ७, ६९; वाच १२: ३४^{१०}.
 संक्रमण-वम- नम् माथी १, १,
 ४, १०^{१५}.
 संक्रमण(सु>)ण- नः आपथी
 १६, ३०, १; वैथी १८, २०:४५;
 द्विथी ११, ८, ४.

संक्रान्ति- नितः आपथी १६,
 ३०, १; वैथी १८, २:४६; द्विथी
 ११, ८, ४; काय ४३:६४.
 संक्रान्ति-वृष- नम् पाव ४३:
 ६.
 संक्राम- पाव ४, ४, १०३; -मेऽमे
 आपथी ३, १६, ८^१; द्विथी २,
 ६, ५०; -नैमि आपथी २, २२,
 ६; माव २, २७: १५; द्विथि १,
 १४, २.
 सांक्रामिक- वा ४, ४, १०३.
 संक्राम(सु>)णी- नी काय १८,
 २१.
 संक्रामत्व- नम् वीथी १६, २: १५;
 वासि १, ६, १८.
 संक्रामन्ती- न्नी आपथी १६,
 ३०, १; वैथी १८, २: ४५;
 द्विथी ११, ८, ४.
 संक्राहियाम् अत्रय ४, २१.
 संक्रमी^१
 संक्रम, संकोलताम् अत्र ८, ८^१.
 संक्रम > संक्रालन- नम् आपथी
 १, १३, १०; वीथी १, १:२९;
 १०:१९x४; माथी; -नेव वीथी
 २, ११, ४६^१.
 संक्रालय वीथी ३, ८: २x४; द्विथी;
 द्विथि २, १२, १०.
 संक्रि(धमे) > संक्षय- मे वा १४,
 ७, ८.
 संक्षय(य-ञा)रह- नः अत्र
 ५२, ८, २.

संक्षि (निजसि), संक्षयेम द्विथी ९,
 ५, ३७^५.
 संक्षयेम वेताथी २४, १६.
 संक्षिप संक्षिपति वाथी ३, १, २, २;
 ४, ३, ३८; काय ६, ९; १.
 संक्षिपेत् कैव २, २: २८.
 संक्षिप्त- नः वा ३, ९; -से अत्र
 ५०, ९, १.
 संक्षिप्य आपथी १६, ४, ३; आसिप
 ३, १, ३: १०^{१५}.
 संक्षेप- नः वीथि ३, ३, २; -वाय
 अत्र ३८, १, १.
 संक्षेप-वर्ष- नम् वीथि १२२.
 संक्षेप-वर्ष (:) कत्र १, ४, ११;
 अत्र २४, १, १०; वीथि ९८.
 संक्षुब्ध > संक्षुब्ध वीथि २८, ३:२९,
 १५; ३१, १७; ४२, २१.
 संक्षुम् > संक्षुम् > संक्षुम् (त-अ)
 वीथि- नम् अत्र ६४, १, ४.
 संक्षी > संक्षीय वाथी ३, ११;
 ५; माथी १, ६, ३, ४^५.
 संक्षु^१
 संक्षिद् > संक्षिद्य वाथी ३, ८८:
 १४; २१; २५.
 संक्षुप्य^१ > संक्षुप्य- न्प्यः
 अत्र २, १०, १४३.
 साक्षुप्य- नः वीथि २, ५, ६;
 -नम् वीथि २, ५, ३^५.
 संक्षुप्य^१ - नये अत्र ४८, १०५^१;
 वीथि ८, १३; निप २, १७^१.
 संक्षुप्य^१, समक्षुप्य अत्र २४, २:

a) ध्रु. पावम. । b) सपा. अणः (क ६, ३ च) << अणम् (काठ ७, १३ व) << अणतमम् इति पाठे. । c) अर्थः ।। d) पाठः ! संक्षीप्यन् इति संस्कृतः टि., उवा. मै १, ४, १३ संक्षुप्य इति, आपथी २, १६, १ प्रथ. संक्षुप्य इति च पाठे. । e) वा, वास १, ३, २१ परावृष्टः द. । f) = अठ- । g) उवा. संक्षयेम (वेता ३, ७, १३, १ व) << संक्षियेम (वे २, ३९, २ च) इति पाठे. । h) पाठः ! उवा. द्विथि २, १२, १० संक्रालय इति । i) वृत्. । j) वा. दक्षि वृत्तिः । k) उवा. आपथी ६, २८, ८ समक्षुप्य इति पाठे. । l) वा १, ३, १५ परावृष्टः द. । m) ध्व. (ध्रु. पदपुस्तिकाः) । n) उवा. अत्र ४, ४ वां ४, १०, २ वासु^१ इति पाठे. । o) = संक्षय- । अणु. ! । < संक्षुप्य इति प्रायोपादः । p) वा ३, ३, ७ परावृष्टः द. ।

पुंसमण्ये काश्री ७, ६, २४; शुभ
 १, २७२.
 संख्यापयति काश्री १०, २३,
 ६; १३, १५, ८; धौतौ; पुंससंख्या-
 पय काश्री १०, ६, २०; काश्री
 १३, १४, ११; १४, १, ७; वैधौ
 १६, १८ = ३; द्विधौ ९, ४, २३.
 इंसंख्य-^० -ख्यानि वैधौ १७, ६ :
 ११.
 संख्या-^० -ख्यया काश्री २, ८, १८;
 कप्र ३, ७, १; १०, ५; वृदे २,
 १; मैथ २२; माप्रा; -ख्या
 काश्री १३, ५, ५; माश्री २,
 ४, ५, ९; वैधौ; -ख्या: काश्री
 १०, १, १६; द्विधौ १, ७, ५०;
 आद्य: कौश्र २, ५, ११^०; शौश्र
 ४, ९, ३; -ख्यानाम् वा ४, ६;
 -ख्याम् काश्री १३, १५, ११;
 वैधौ १२, १८ = १५x५; अय:
 -ख्याया: वा ५, १, २२; ५८;
 २, ४२x५; पावा ३, १, ७२; २,
 ६x५; मीश्र; -ख्यायाम् वा
 ६, ३, ४७; मीश्र १०, ५, १५;
 -ख्यासु काश्री २४, २, ७; मीश्र
 ९, ४, १२; १०, ५, १४; १२, ४, ८.
 संख्या^० -ख्यम् वा १४,
 ६१.
 संख्य-ज्ञान-^० -नम् वैध
 १, १, १३.
 संख्य-योगो (ग-उ)पदि-
 पद्-धर्मशास्त्र-विद्-^० -विद्
 शेष १९२.
 सांख्या(ख्या-त्रा)चार्य-
 -०र्ष विध ९८, ८६.
 संख्या-ग्रहण-^० -गम् पावा १, १,
 २३; ५, २, ४६; ३, २.

संख्या-ज्ञ-^० -ज्ञ: काश्र ७, ३.
 संख्या-ख्य-^० -ख्यात् मीश्र ८, ३,
 १३; -ख्ये पावा ५, १, २८;
 -ख्येन मीश्र १०, ६, २२.
 संख्या(ख्या-त्रा)दि-^० -दे: वा
 ५, ४, १; ८९; पावा ४, १, २७.
 संख्या(ख्या-आ)देश-^० -यचन-
 -नात् पावा ५, ३, ५२.
 संख्या-नामन्-^० -म वा ४, ६.
 संख्या-नियम-^० -नेन शत्रवा ११,
 २१.
 संख्या-न्याय-^० -न्य: शोधौ ६,
 १, ११.
 संख्या-परिमाण-^० -ये वा ५, २,
 ४१.
 संख्या-पूरण-^० -णम् मीश्र १०,
 ५, १५; २७; -णात् मीश्र १०,
 ५, २९; -णे काश्री १०, १, १७;
 पावा ५, २, ४८.
 संख्या-पूर्व,र्वा-^० -र्व: क्षुद्रा ५,
 २७; वा २, १, ५२; -र्वाया:
 पावा ५, ४, ७५.
 संख्या^० (संख>)विका-
 -काभि: अय १०, १, ७.
 संख्या-पूर्व-पद्-^० -दागाम् पावा
 ५, १, २०.
 संख्या-वृद्धि-^० -न्ते: पावा ४,
 २, ६५.
 संख्या-प्रतिषेध-^० -व: मीश्र ६,
 ७, २१.
 संख्या-प्रयोग-^० -ये पावा १, २,
 ५८.
 संख्या (ख्या-प्र)प्रसिद्धि-^० -द्धि:
 पावा २, २, २५.
 संख्या(ख्या-अ)भाव-^० -वात्
 मीश्र १, १, २०.

संख्या(ख्या-प्र)निघान-^० -न्म्
 मीश्र ८, ३, २६^०.
 संख्या(ख्या-अ)निघान-^० -नेन
 निम् ९, १३ = ३४.
 संख्या(ख्या-अ)भ्यावर्तिन्-^० -र्त्ति
 वैधौ २४, ६ : १; ३६.
 संख्या-मात्र-^० -त्रे लाश्री ८, १, १.
 संख्यामात्र-विकार-^० -त्त-
 -त्वात् मीश्र १०, ५, १.
 संख्या-मुष्टि-^० -विकृति-^० -वि-
 वाश्री १४, २, २७.
 संख्या-युक्त-^० -क्तम् मीश्र ३,
 ३, ३२.
 संख्यायुक्त-चेष्टण्यत्त-
 -निर्वातिन्^० -र्त्तिनि काश्री २४,
 १, ३९.
 संख्या-योग-^० -गात् काश्री १५,
 ८, २१; काश्र ५, ११.
 संख्या(ख्या-अ)र्ष-^० -भाय-^० -नात्
 मीश्र १०, ५, ५६.
 संख्या-लौप-^० -न्य: मीश्र १०,
 ३, ६२.
 संख्या-वत् मीश्र १२, ३, ३१.
 संख्या-वद्->^० -वती-^० -न्य: का
 २०^०, १, १६.
 संख्यावत्-^० -नवात् मीश्र
 १०, ५, ५६.
 संख्या-वयो(वत्-अ)र्ष-^० -र्षो:
 शुभा ३, ४७.
 संख्या-विकल्प-^० -न्य: काश्री
 १, ८, २०; काश्री १, ४, १,
 ४१.
 संख्या-विभक्त्या(वि-अ)न्य-
 -लिङ्ग-युक्त-^० -न्य: वृदे १, ४५.
 संख्या-वियय-^० -न्ये काश्री ६,
 १०, २४.

a) = संख्या-। उप. पक्षे कः प्र.। b) संख्या: इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शां.पु.)। c) = इति-
 शास्त्र-विशेष-। d) 'क्यापि' इति शीघ्रं.। e) इत्. > उत. (तु. c.)।

सत्प्रा-भि साप-पूर्- -वैश्य
 भा ६,१,११०
 सत्प्रा विहित- -तेषु गीम् १२,
 ३,३०
 सत्प्रा(त्पा-अ)ज्यवा (व-आ)
 दि- -ने पा ४,१,२६, पावा
 २,४,३०
 सत्प्रा-सयोग- -मात्-मात्
 आप्तु २१,१४, द्विषु ६७१
 सत्प्रा-सज्ञा- -ज्ञावाम् पावा
 १,१,२३
 सत्प्रा समान- -नवात् गीम्
 १०,२,८
 सत्प्रा-समानाधिकरण-नम्-
 मात्- -तेषु पावा १,४,१
 सत्प्रा समास- -से पावा २,१,
 २०, २,२५
 सत्प्रा-सपद्- -पद् वैश्री १२,
 १८, १२
 सत्प्रा सप्रत्यय (य-अ)र्धे-
 -र्धम् पावा १,१,२३
 सत्प्रा-सामञ्जस्य- -स्यात् गीम्
 १०,६,४१
 सत्प्रा सामानाधिकरण्य-
 -नवात् पावा २,४,१
 सत्प्रा-साम्य- -स्यम् पावा १,
 ३,१०
 सत्प्रा सु-पूर्व- -वैश्य पा ५,
 ४,१४०
 सत्प्रा(एवा ए)कज्यव- -नवात्
 पा ५,४,४३, पावा ५,१,३७
 सत्प्रा(एवा-उ)चरपद्- -द
 पावा २,३,२५
 सत्प्रात्,ता- -त आशि ६,२
 -तम् ऋच् ३ ३९, -ता आशी

१०, १, १६, कौटु ६१, ३६५,
 -तावाम् शुवा १, १४३, -ते
 ऋच् ३, ३८
 सत्प्रात् राज- -पा ५,४,८७
 सत्प्राया(त अ)ल- -पा ५,४,
 ८८
 सत्प्रायन- -नम् वृद्धे २,१३
 सत्प्रायन- -नम् हिश्री २,४,१४
 सत्प्रायन(न-उ)पप्रवर्तन- -ने
 वैश्री १६, १८ १८
 सत्प्रायण वीथी ८, १४ २७, ३७,
 वैश्री १६ १८: १५
 सत्प्रायण शीथ्री १३, १, ७, काशी
 १५, ८, १६, आपथी
 सत्प्रायमा(न>)ना- -नावाम्
 शीथ्री १८ २१, १
 सत्प्रायेय- -ये पा २, २५, ५
 ४, ७३
 सत्प्रायेय(वा-अ)निवादिस्व-
 -नवात् पावा २, २, २५
 सत्प्रा- सम्/गच्छ् ऋ
 २सङ्ग- -वृद्धि, ऋ ऋ
 सम्/गच्छ् गम्, सगच्छते आपथी
 १६ ३, ६, ३, १३, वाधुथी ४
 ४६ ५, ७१ २, काशी, सगच्छति
 अप १, ४५, १, सगच्छते माथ्री
 ५, १, ७, ४, वाधुथी २, १० ११,
 सगच्छ ते वीथी १८, २० २०,
 नृसम् गच्छे वीथी १, २०
 ३०, माथ्री १, ३, ५ १८,
 नृसम्(गच्छे)आपथी ३ १०, ८,
 वीथी १ २० २०, माथ्री, नृसम्
 गच्छताम् आपथी ३, १ १०,
 ७ १४, २, वीथी, नृसम् (गच्छ-
 तम्) शीथ्री ४, १३ ३, वाथी

३, २, २, ८, २६x४, आपथी,
 १सायकताम्^५ या १२, ३४,
 नृसम् (गच्छताम्) आपथी ७,
 १४, २, वीथी ४, ६ ५, माथ्री,
 नृसगच्छस्व आशिष्ट ३, ३,
 ३. ७, वीथि १, ११ ६,
 ऋच् १८, ३, सम् गच्छस्व,
 सम्^२ (गच्छस्व) वैतापी २४, १,
 नृसगच्छात् वीथी ३, ६,
 १४, हिश्री २२, ३, १९, आशिष्ट,
 सम्(गच्छन्म्) वृद्धे ८, १४^१,
 सगच्छन्त वाधुथी ४, ५ ३,
 सगच्छते माथ्री ६, १, १, ३८,
 वाथी २, १, १, ८, वैश्री १८, १
 २२, हिश्री ११, १, १५, ४०,
 सगच्छे वैध ३, १, ७, सगच्छया-
 ताम् काशी ३ ३२ २४, सगच्छेस्व
 आशिष्ट ३, ५, २ १९, वीथि १,
 २ २०, सगच्छेत् वीथी २३,
 ५ २७, नृसम्(गच्छेय) आपथी
 १८, १७ ८, १८, ३, वीथी १२,
 १३ २०, हिश्री १३ ६, ८, १४
 सगमेमदि वीथे २, २ ८^१,
 सम् सगमेमदि आपथी ६, १९,
 १^१, सगमेम अप्राय ६ १^१,
 सम्(सगमेम) वृद्धे ५ ४०^१
 सम्^२ जग्मे वषा ३ २, ११^१,
 नृसम् जग्मुः आथी ८, ७,
 २४, शीथी ११, ११, १२,
 १२, ५, १०x४, वैथे सम्
 (जग्मु) ऋच् २, ६, ३४^१,
 सम् मिथीय आथी २, ११,
 ५^१, सम् (मिथीय) शीथी २,
 ११, ५^१, सम्(गत) माथ्री ५
 १, १०, ७^१, सममत्त वा १२,

a) वा १, ३ २९ पराम् ऋ. । b) सगच्छत इति षं, सा (यथा ऋ १, ८०, १६) । c) पाठे वैश्री सुगच्छन्म्
 ऋ १० १९१, २ इति ऋ । d) = यथा मा ३, १९ वा ३, ११ मात् २, ३, ४, २४ । मै १, ५, २, ८ प्रसुम् गीय
 इति पाठे । e) = सप्त मा ३७ १५ प्रसु । मात् १४, १, ४, ५, ६ तथा ४, ७, १, २ सुम् घगत इति पाठे ।

३४^क, १^{सम्} शम्भत^० शोभो
 ८, ९, २, आपथो १, २४, ५, शोभो
 १, ९, ७, २०, ८, ३१, भाथो
 १, २५, ५, सम् (अमत्) शोभो २,
 ३, १५^०, सम कौट ५, ५, ५^०,
 १^{सम्} अगथा शोभो २ ११,
 ५, आपथो ६, १६, १२, शोभो,
 १^{सम्} (अगथा) शोभो २, ११,
 ५^०, काथो ४, १२, ४, शोभो,
 १^{सम्} ग-महि लाथो २, १२,
 १३^०, आपम २, १, १,
 आभिए, सम् शग-महि शोभो
 ४, ११, ६^०, १^{सम्} (अग-महि)
 शोभो ४, ११, ६^०, काथो ३, ८,
 ८, १०, ८, ८, शोभो
 सम् गमय शोभो ४, १२,
 १०^०
 समवीगमन् शोभो १४, १४
 १३^०

१स ग^० - नो निघ २, १०^०
 सनाधमल, ना - न वा ४, १२,
 -नम् भाए १, २७ १५, -नाम्
 माथो १, १, ३, १७ वाथो १,
 २, २, १७, माए १, २७ १४
 स गय ता - त या १०, २१^०, -तम्
 पा ३, १, १०५, -वा जैथोवा
 १२७, वाथ २२, १२, शय २,
 १९, -तानाम् वाथो ४, २,
 ३१^०, -ताम् कप १, ८, ७, -जे
 शैश २१५ -तो या ३, ९
 स गति - पाय ५, ४, ३४, -तिम्
 वृदे ५ ७७, -ती शैश ५७

सामतिक - पा ५, ४, ३४, -क
 पाय ८, ८^०, -कम् निघ ६७,
 ३५^०.
 स-गव्य अथ ४, २१, श्रया
 १^{सम्} गव्य^० - ये जैथो १४ २४,
 कौट ६८, १०, निघ २, १०^०
 स गम - पाय २, ४, ३१, -मम्
 शोभो १८, ४५^० ३, -माए
 कौट ५, ६, ५, -मे अय २२, ४,
 ३, विघ ८५, २३, निघ २,
 १७^०, या १०, ३१^०, -मेन या
 ३, ५, -मेयु अय १, ४५, १
 स गमन - १^{सम्} आपथो १६, १६,
 ५, शोभो १०, २२^० १९,
 माथो, -गम् आभिए ३,
 ५, २, २, शोभि १, २, २, वैय
 ६, २ १, ५, या १०, २०,
 -नाए या ३, ९, -मे वैताथो
 २४, १, वैय ६, २ ९, १८ ८,
 या १०, ३९
 १^{सम्} गमनी - नी शोभो २,
 २१ ७, वाथो १, ४, ४, ४१
 १^{सम्} जमान - न शोभो ९, १०,
 ८^०, लाथो ७, १३, ५, या ४,
 १२^०, -नी^० आपथो १२, २२,
 ८, माथो २, ४, १, १७, वैथो
 १५, २८ १, १०, शिथो ८,
 ७, १८^०
 स गव^० - वे आपथो १५, १८, १३,
 शोभो १४, ३० ९, भाथो ११,
 १९, ४, वैथो ३, ३ १, शिथ
 १, १९, ३.

सगव-काल - के शोभो २०, १
 ४०, ४४.
 सगना(व-अ)न्व^० - न्त शोभो ३
 १२, २, वैथो २, २ ११
 सं-गायत - स^० गै द
 सं^० गार्ह, १^{सम्} गाहे शोभो ६
 ९ १०, २१, १०, १२०, ला
 हन्ते आभिए ३, ६, १ २२, २१
 शोभि १, ८ १९, २०, शिथ ४
 १२
 सजिगाहिरे शोभो ३४, १^०
 स गहन - नम् आभिए ३ ७, ३
 २४, शोभि २, २, ३, शिथि १९
 ११, -मे शिथि ४ ६
 सं-गीत - स^० गै द
 स^० गृ, गृ(श-वे)^० > स-ना^० - न
 शोभो १६ १६, ३^०
 स-नारण - न्वाए वा ३, ९
 स^० गृम्, ह, प्रह, सगृम्भसि वा ६
 १, १^{सम्} गृम्भा वा ६ १, ४, ६
 १^{सम्} गृम्भन् आपथो १६ १९
 १, वैथो १८, २ ४, शिथी
 सगृन्नीवे शिथ १, ११, २
 सगृहाति शोभो १४, १८ १८
 वैथो १, ७^० १, १३, १५, १^{सम्} गृ
 हामि भाए २, ६, ४^०, सगृह्य
 गोग ३ ६, ४^०, सगृह्य
 शोभो १४, १८ १७, शोभ २४
 २२^०
 सजग्राह वृदे ५ १४
 सगृह्यते अय २२, ९, ४
 स गृहीत - न्वाए वाथो १, ६, १, १^०

a) पांमे वैप १, २०८९ ८ द । b) चरणेण सभिराव (त्त सथा श्र १०, १६, १४) । c) पांमे वैप १ सुमच्छमहि मा २०, २२ टि द । d) = सपान-। उप अधिकरणे प्र । e) पांमे वैप १ सगृगानम् काठ ४, १६ टि द । f) विघ । मवार्थे ठक् प्र । g) परस्म पांमे । h) वैप १ द । i) सथा प्मान (मा ७ १३, १८ प्रम् मास ४ २ १, १९ च) <> प्ताना काठ ४, २७, ७ क ३, ३ <> प्तानो (शि १, १२, ४ ६, ३ तैमा १, १ १, २ च) इति पांमे । j) = सपा क १६, ७ प्रम् । के ४, २, १० शी १, १४, ३ वै २, ११ ५ प्ना इति पांमे । k) बत । l) पांमे वृ ६७० । द । m) पा १, ३, ५२ पराष्ट द ।

गोष्ठ २, २, ५, ३, ५, ५, ४, २, १,
 -आन् गोष्ठ ३, ५, १३
 संगृहीत-त्व- स्वात् माधौ
 ३६: २
 सं-गृहीत्या वृदे २, ४८.
 सं-गृह्य- -ह्यन् वीधौ १३, ३०
 ११.
 सं-गृह्य काधौ ६, ५, १७, ७, ५, १७,
 आपधौ ५, ४, १५, १०, १४, ८,
 माधौ
 सं-ग्रह^०- पाग ४, २, ६०, ४, १०२^०,
 -ह अण २१, २, १, ५२, १६, ४,
 २३, ११, ४, -हे अण ५१, १, १,
 आउयो ७, ७, -हेण अण ५२,
 १, ५, -हेषु अण २५१
 साम्राजिक- पा ४, २, ६०, ४,
 १०२
 संग्रह-सपत्त- -वेपु अण २५ २,
 ५
 संग्रह सूत्र^०- (>साम्राजिक-
 पा) पाग ४, २, ६०.
 स प्रहण^०- ङीञ् गोष्ठ ३, ६, ४,
 प्राय ३, १, ४५, -अम् पावा ८,
 ३, १३, -ने वीध २, २, ५४
 साम्रा(ण>)भी^०- -वीम्
 आपधौ १९, २३, ६, वीधौ १३,
 ३०, १०, १५, ३ १०, हिधौ
 २२, ४, २०, -ण्या आपधौ २०,
 १, ४, हिधौ १४, १, ४, -ण्ये
 वीधौ २३, ३ २४
 स प्रदीप्त- -०त् वाधूधौ ३ ४६
 ५, -ता आपधौ १८, १७, १५
 २२, १०, १५, वीधौ, -तारम्
 आपधौ १८, १९, ६, वीधौ १२,

१५, ७, हिधौ १३, ६, ३१, -तु
 काधौ १५, ३, १०, वीधौ १२,
 ५ २८, -तुम् वीधौ १०,
 ४८: ७, वीधौ १९, ६, ३८,
 -प्रा आपधौ १८, १७, १४,
 वीधौ १२, १४ १२, २२, १९
 ५, हिधौ १३, ६, २४, १४ ३, ४४,
 ४५, -प्रे वीधौ १२, १५: १३,
 वाधौ ३, ३, ३, २२.
 स प्राह- पा ३, ३, ३६
 स प्राह- छम् वैध २, १५, ८,
 -ह्यन् अण ४७, १, ५
 सं०/वै, समायत शोधौ १६, १, २५,
 काधौ २०, ३, २, ङीञ् आपधौ २०,
 ६, १३, ८, १४, ङीञ् वीधौ १४, २,
 १६, ३१, वीध १, १४, ९,
 गोष्ठ १, २२, ११, संगवेषाम्
 आप १, १४, ६, पाठ १, १५
 ७, संगवेषु: काष्ठ २२, १
 स गाधन- -अम् काधौ २०, ३, ८
 स गीध- -त् वाधूधौ ३ ६९ ३२^१
 सं०/अध् > स अधि (त>)ता- -ता
 पाठ २, ६, २४
 सं०/अस्त, सप्रसते अण ५३, ३, ४
 संग्रहलुप्त^०- -त्या वीधौ १९ ४
 सं०/साम्रा^० पाधा जुवा वम युदे
 सं०/साम्रा^०- पाग ४, ४, १०३, ५, १,
 १७, १०१, -स वीधौ १९,
 १० ३०, अण, वा ३ १६, -अम्
 आपधौ ११, ४, ८, १९, १९,
 १, २०, ६, १५, वीधौ, -अस्य
 अण ४८, १०५, निघ २, १७,
 -मा अण ५१, ४, १, ५, २, ६२
 १, ३, ८, २, ४, ७३, ५, ४, -मात्

वीधौ १८, ४६: ४, -मानि
 गुञ ३, ११४, -माप या ४, ८,
 १०, ४७, -ते आपधौ १४, १४,
 ५, १७, १४, ८, २२, १२, ११,
 वीधौ, पा ४, २, ५६, -गोपु या
 ४, २४, ९, १९, २०
 साम्रा- पा ५, १, १७
 साम्राजिक- पा ४, ४, १०३, ५,
 १, १०१, -अम् कौम् १५, १५,
 ३७, २, गोष्ठ १०, १९, -काणि
 कौम् १४, ७
 साम्राजिकी- -वीम् माधौ
 ५, १, ६, ३१, -व्यौ माधौ ५,
 १, ५, ४४
 साम्राज्य^०- -व्यौ वा ६, ३३
 सत्राम-कर्मन्- -सिन् विध ३, १९
 सत्राम गाम्- -म या ३, १०, ४,
 २४, ९, २३, १४, -सु या ३,
 १०, -मानि या ३, ९
 सत्राम विनिर्गत- -जे विध ९९,
 १५
 सत्राम-सपायथा- -जे माधौ ५, १,
 ५, १४
 सत्राम-ह्व- -जे आधिप ३, ११, ४
 ४४, वीधि ३, ७, २
 सत्रामा(म-ञ्)ह- -हानि ऋञ २,
 ६, ७५, वृदे ५, १३६
 सत्रामा(म आ)पतन- नम् आपधौ
 १९ १९, २
 सत्रामा(म आ)शिस्- -सिप ऋञ
 २ ६, ७५, -सिपत् साञ २,
 १२२०, -शो साञ २ १२१९
 संग्रामिक^०- (>साम्राजिक- पा)
 पाग ५, १, १२८

a) नाम (कच्य विरेण), भाप व। b) सद्गृह- इति पाठ। c) तु पागम। d) भावे वर्तते च क्व। e) वैप १ द। f) समाप इति पाठ। g) वनि लोच (तु आपधौ २०, ८, १४)। h) = कधि-विशेष-। म्यु १। i) विप। तत्रसाधनीय षट्. प्र उस (पा ४, ४, १०१) वैतु। PIV प्रय संग्राम्य- इति।।
 ३) तु पाग। साम्राजिक- इति पभे द।

संग्रामिन्- भी छम् ३, १४ : ७.
 सं-ग्राह- 'स- सं✓घट्ट् द.
 सं-घ- सं✓हृद् द.
 सं✓घट्ट् > सं-घट्ट- (> १सांघ-
 टिक-)
 सं-घाट- (> सांघाटिक- पा.)
 पाग ४, २, ६०.
 सं-घटा- (> २सांघटिक-).
 सं✓घट्ट् > सं-घट्ट- पाग ४, २,
 ६०; -ट्टेयु अण ६२, १, २३.
 सांघटिक- पा ४, २, ६०.
 सं-घाट- 'त- प्रयु. सं✓हृद् द.
 सं✓घुप् > सं-घुपित-, सं-घुप-
 पा ७, २, २८.
 सं-घोषि(त् >)नी- अणः शाश्री ४,
 १९, ८.
 सं✓घुप् > सं-घुप्य कौस्तु ३६, ३३
 सं-घोर- स्र् अण १९, ३५.
 ✓सघ्, सघ् पावा. अण. अणम.
 लम. सेवानसेवनयोः समवाये च,
 संसचो शाश्री ९, ५, १; आपश्री
 १४, २, १३; वीश्री ४, ६ :
 ५१x५; १७, ३ : ६; हिश्री
 ९, ७, २१; वीश्री १५ : ९;
 निम् २, १२ : ९; निष; सचवि
 निष २, १४; सचवे
 वाश्री ३, ८६ : १०; आपश्री २,
 २०, ३०; छ २५, ६; आमिष्ट
 ३, २, २ : ३; पा १, ११; ७,
 २३; सघन्त या १२, ४१;
 संसचणम् वाश्री ४, १६, ५;
 आपश्री २३, ३, १३; ४, २; कौश्ट

५, ८, ५; आमिष्ट २, ४, २ : ४;
 हिष्ट १, २८, १; संसचन्ताम्
 शाश्री ४, ९, १; आपश्री १३,
 २२, १; माश्री १, ८, ३, ३; कौश्ट
 ३, १५, २; शांष्ट ३, १२, ३;
 या ९, ३३; वीश्री ३३; उम्
 २, १२; सचख > स्या वीश्री ३,
 ८ : २९; या ३, २१; ऋषा ७,
 ५६; श्राया ३, १०७; तेषा ३, ८;
 सचषम् अण १६, १, १३; अस-
 चन्त निम् ७, ११ : २०; सचेश्
 वीश्री १३, ३ : ८; २३, १ : २३;
 हिश्री २९, २, १०; सचेष या ६,
 ४; संसचमहि वाश्री १, २, ३,
 ३४; शाश्री १३, २, ८; शाश्री ५,
 २, ११; कौस्तु ८९, १.
 संसचिक अण ४८, २३; या ६,
 ६; सिसशि ऋषा ५, २९;
 संसचिषत् आपश्री ६, १७, १२;
 हिश्री ६, ६, १६; निष ३, २९;
 वा ३, २९; ११, ४९; ऋषा १७,
 ४३; उम् ३, १.
 सचवि निष २, १४; अस-
 चन्त वीश्री १४, १२ : १३.
 सचिम वीश्री ९, १४ : १५.
 असचन्त शाश्री १५, ८, १;
 संसचिमहि आपश्री २, १५, १९;
 पाश ३, ४, ७; पाश १२, १; माश
 २, ११, १९.
 संसच्- सचा कौश्ट २, १, १७; ७,
 ४, ३, ९, ११, २१; शाश्री; आपश्री
 ५, १, २; वीश्री २, ६ : ३५;

१२ : १०; माश्री १, ५, ११;
 हिश्री ३, २, १; वीश्री ५, ७.
 सचा-म्- भुवा या ५, ५.
 सचवि- > अति-वर्षम् शीव २, ६६.
 सचान- नः शाश्री १६, ७, १.
 स-सच- ऋषाः अण ७१, १०, ३.
 स-चतुर्थ- शः हिश्री १६, ९, २;
 ३६.
 स-चतुर्दश- अण् कृदे ६, १४.
 स-चतुर्मासिक- अण् विष ४, ९.
 स-चन्द्र(न >)ता- ना अण ५,
 २, १.
 स-चराचर- स्र् विष १, १६
 या १४, ३३.
 स-चरु-पशु-पुरोडा(स >)शा-
 -शाः वीश्री २२, ११ : १३.
 स-चर्म- अण् कौस्तु ३८, ९.
 स-चर्मक- अण् वाश्री ३, ११.
 स-चर्मन्- अण् कण ५२, १०.
 स-चपाल,ला- स्र् वाश्री ३,
 ८१ : ५; -ले आपश्री १९, १६,
 १५; हिश्री २२, १, १२.
 स-चात्या(ल >)ला- स्र् शाश्री
 ५, १, ४.
 स-चामर- स्र् अण ४, १, १४;
 ७०, २०, १; -सेयु विष ११, ११.
 सचिय,या- पाग ६, ३, १४; -
 वीश्री १२, ४६; -वाः शाश्री
 २०, १५, ८; -वानाम् अण ७,
 १७, ९; -वेन वीश्री २४, १३;
 ११; -येयु अण ७०, १०, ५.
 स-चेतन- नः पाश ३, १३, १.

a) पृ २४८६ k द.। b) = सं-घात-। c) = अण-विशेष-। सघटा-, संघटा- इत्यत्र पागम्।
 d) वैष १ द.। e) या ४, १०; ९, १४; २० अण २, १, ३ पराण्डः द.। f) पामि. वैष १ सचो मा ८, १९ डि.
 द.। g) पा. पत्नी वृत्तिः। h) = तपा. अ १, ९८, ३ प्रथ. माश १, ८, १, ४२। मै १, २, १९ अण्डपर इति
 पामि.। i) पामि. वैष १ विषय वी ३, २, ५ डि. द.। j) पृ ४४७ d द.। k) सन्त पामि. वैष १ सचोमि क
 १०, ५७, ६ डि. द.। l) पामि. वैष १ वि. पुत्रि वाठ ७, १२ डि. द.। m) = अण-। n) पण. वा. तपा-
 पातः अण् प्र. (पावा ५, ४, ७५)। o) धु.। < ✓सघ् इति ऋषी. प्रथ.।

१३, ११, ७, ११
 रस-जा(त)ता- -ता: गोपु ३, १,
 १५६.
 रस-जाति- > सजातीय- पागम
 १५७
 सजात्य- -त्यम् वा ६, १४, -त्येन
 शैवि २३४, नाशि २, १, ८.
 रस-जाति- -त्यं हिय २, ३, ५^{१५}
 रस-जानि- -नय: आपमं २, १३,
 ११^२, आगिण २, १, १८,
 भागु १, २३-१०.
 स-जिते(त इ)न्द्रिय- -या अण
 ३०, २, १^१
 स-जि(ह)ज्ञा- -ज्ञे आश्री १२, १, २
 स-जुम्यक- -केन वैपु ६, ८ ४.
 स-जुप- पाठमो २, १, २१०, पाम
 १, ४, ६१, -ज् आश्री ७, १०,
 ५, ८, ११, ४, ९, ६, २, आश्री.
 सज्-√ह पा १, ४, ६१.
 स-जुष्ट- -ष्टम् वीथी २१, २३: १,
 -ष्टम् वीथी २१, १८: २, २२,
 १४: ३.
 सजुष्टानाम् अण १, ४, ६, अशा ११,
 ६.
 सजुष्टोवा अप्राय ४, ४
 स-जोप- -पाम्याम् आपथी १२,
 १४, ९, वीथी ७, ६४०, वीथी
 १५, १५ ८, द्विथी ८, ४, ११
 स-जोपण- -णम् आश्री १२, १९,
 ११^२

सि जोपस्- -पस: शीथी ७, १०,
 १४, १२, ६, १२, १८, १०, १२,
 वीथी; -पसा आश्री २, ८, ३,
 आपथी १७, १७, ८, वीथी १०,
 ५४: ५, माथी, -पा: आश्री
 ५, १४, २, आश्री ३, १८, १५,
 ६, १०, ७, ७, १९, ४, आपथी,
 वा ५, १५^१, ६, ७, ८, ८,
 -पोभ्याम् माथी २, ३, ५, ४^१
 √सज्ज् (<सस्) पाथा. भ्या. उभ
 मती, सज्जे निम् ९, ८: २३;
 २९, २६
 सज्-जन- सत्- द
 स-ज्या > उय- -उयम् वीथ ३६,
 ३१
 रस-ज्योतिस्- -वा ६, ३, ८५
 रस-ज्योतिस्- -ति: वीथ १६, ३१,
 -तिपम् वाथ २३, ३७, -तिथि
 वीथ २, १७
 सज्वरी- अण ३५, १, ११
 स-ज्ज्, सपठे आपथी ८, २२, ८,
 संक्षीत वीथी २४, १५-४,
 भाथी ५, १२, २९, वीथी, सच-
 क्षीरत् आथी १०, १०, ६.
 सं-चय- प्रय सं-√बि(चये) द
 सं-चर, सचरते भाथी ८, ४, ११,
 निम् १, ७-२९; ८, २: ४५,
 १०, २ २७, सचरति शथी
 १७, १२, १, आपथी ६, २, ७,
 वीथी, सचरन्ति भाथी १, १२, ९, १

वीथी १७, ६: २, आपमं, मात १,
 १३, ४^{११}, सम्(चरन्ति) द्वे ५,
 ११३^{११}, सचरताम् आपथी १,
 ६, १०, वीथी १, ४: १७, भाथी
 १, १७, ९, द्विथी १, ३, ११, सच-
 रस्व अण २२, १, २, सच-
 आपमं २, ३, २१, मागि
 संचरेत् आपथी ११, ९, १, १०,
 १७, १८, काथी, सचरेत्
 वांथी २, ८, २, वीथी २१, ३१
 १९, वाथुथी ३, १०१ १,
 सचरेत् आपथी ११, १३, १०,
 ११, गो २, २२, सचरेत्
 भाथी १, ६, २, १७, २, ५, ५
 २२^१, आपम, सचरेत् आगि
 २, ४, १-१२, भागु २, १-५
 हिय १, २७, २.
 सचरित् वीथी २, १६: १०,
 ६, ११: २१; सचरित्
 भाथी १, १, ३, १६, वाथी १,
 २, २, ११, सचरित् आपथी
 १, १, २, १२^१, १०, ११, ७,
 भाथी १, १२, ८^१, वीथी १, १०
 ६, ३, ७ ६^१, १२, २२: ६,
 द्विथी १, ३, ३१^१, ७, ३, ५८
 सचरन्ति निम् ३, १०-३०,
 ७, ८ २७^१, सचरेत् वीथी
 २०, २ १, ४, आथी
 सचरन्ति निम् ६, ४-११.
 सं-चर- वा ३, ३, ११९, -

a) = वस्त- । b) विष (सापत्या-मातुः) । c) = रस । d) विष । वस । e) वैप १६ ।
 f) उप^१ = जन्म इति old. । g) सवा. सजातय. <> सजातय इति पाठे । h) उप. = जाया- । i) उप
 कम । j) सचरेत् इति संस्कृतो टि । k) उप = मन्त्र विशेष- । मा २५, १ । l) एषा 'जोप'
 (वी १, ४, ५, १ च) <> 'जोपो' (मा ७, ८ प्रय मात ४, १, ३, १९ च) इति पाठे । m) एषा. सि ५, ३०, ५
 शी २०, १३५, १० सुचेतनम् इति पाठे । n) पाठे वैप १ सुतम् वा ३, ५१, ८ टि द्र. । o) स-जा
 इति श्लेष । p) वा १, २, ५४ पराष्ट द. । q) पाठे. वैप १ सचरन्ती टि १, ७, ७, २ टि द्र ।
 r) पाठे वैप १ सुम् • पान्ति ल ६, ४७, ३१ टि. द्र. । s) पाठे वैप १, ६१८ । द्र । । t) सवा 'रिपु' <>
 पिट इति पाठे ।

आश्री छ, २, १२, शाश्री २,७,
१५, १७,७,१२, वाश्री, -रम्
काश्री ३, ४, १, ५, ३, १९x.
आपश्री, -रवो वीश्री २८, ३
१८, -रा हिश्री १४, ३, १९,
१७, १८, -रायाम् माश्री १,
७, ३, ३, -राणि आपश्री ८,
३, ३, २०, ५, वीश्री, -रात
निम् ५, ४ : १९, -रे आपश्री
१७, ११, ५, ६, वीश्री, -रेण
आश्री ६, १४, १०, काश्री ५७,
१०८, १६२, काश्री २९ १७,
-रेभ्यः माश्री ५, १, ३, १९, १,
४, १, २७.
सचर विष्णोपरमाल दक्षिणा
प्रतिग्रह-मछ- -शा द्राश्री १४,
१, २, लाश्री ५, ५, २
सचर भागिन्- -गिन वाघ
११, २२
सचर-यातयम- मो वैताश्री १७
सचर(र-आ)चमना (न-आ) दि
(क>)सा- -का काश्री ३५ ४
सचरिन्- -री वीश्री २५, २०,
५ २६, २४ ५
स-चरण- -नात् वाश्री ३, १०१.४
सचरणा(न अ)ये- -याप माशि
२, ११०.
स चरत्- -रम् वाश्री ९ २७
छपा ६, ८, -दृश्री वीश्री
१८, १७ २०, आपम २, २१,
१७, पाए ३, १४, ६.
सचरन्ती- -न्ती आपम २, २०,
३१
स चरित्तवै हिश्री ९, ५, १९०
स चरेण्य- -ण्यम् मा २, ६१

स-चर्य- -र्यम् आपश्री ६, २, ८,
१०.
स-चारयत्- -यत् आपश्री १, २०,
३, माश्री १, २१, १०, वैश्री छ,
७ ४, हिश्री १, ५, ५७
स-चारि(र>)गी- -गी वीश्री २६,
२३, २
सचारि-धर्मन्- -मीणि निम् ३,
१० : ३६
स-चार्य- -र्यम् आपश्री १८, ११, ११,
हिश्री १३, ४, २८
स चार्यमा(वा>)णा- -णा हिश्री
१६, ३, ४०
सं✓चत्, सचरेत् अप ७०, ११, ३३
सचरवेत् माशि २, १२
सं✓चि (चने), सचिनोति वाश्री
३, ४, ५, १०, वीश्री ५, ५, २; वीश्री
४१, ११, ८२, २९, ८५, २५
सचिन्वन्ति हिमि ९ १, ५ ११,
सचिनोमि वाघ २२, ९, ४, १,
सचिन्वीत वाघ ९, ४, सचिनु-
यात् आशि ३, ७, २ १७,
वीशि २, ३, १, सचिनुयु
वीश्री १४, २७ : ८, २६, १
२१, १२ २२, आशि ३, ६,
३ ३, वीशि १, ११ ३
स-चय- -व वीश्री ३, १, ११, मा
३, ५, ५, २६, -यम् वाशि २,
१०८, नाशि २ ८, १०
स-चयन- -नम् काश्री २५ ८, १, ६,
आश्री, -नात् शाश्री छ, १५, ६
कीश्री ५, ५, १, आशि २ ७, ४
११, वीश्री छ, १०, २
सचयन प्रभृति वि ष्य छ
१, ७

सचयना(न-आ)दि- -दि वाश्री
२५, १३, ४५
स-चयिन्- -यिनाम् कीश्री ३, १२,
३०
स-चय्य- -पा ३, १, १२०.
स-चिर, ता- -तः वाश्री छ, १०३.
१४, १५, ११९ ६, ७, -तम्
आश्री छ, ८, २४, आपश्री १७,
१०, ११, वीश्री, -तस्य वैश्री
१९, ६ ८५, -तयात् वैश्री
१४, -ते शाश्री २, २५, १,
माश्री ६, १, ५, १०, वाश्री.
सचिद-धर्मन्- -र्मन् आपश्री
१४, ८, ५, हिश्री १०, ८, १७,
-मीणि वाश्री १४, ४, १०, वाश्री
५, ८, १०.
सचिजा(त-आ)दृति- -ती वीश्री
१०, २७ १५ ३९ १०, ४१
९x, -ती वैश्री १२ ६ ३१.
सचितो(त उ)य- -येन वैश्री
१९, ६ ६२
सचितो(त-उ)य- -यन
आपश्री १७, १२, १२६, १९, १२,
२६, हिश्री १२ ३, १५x
स चित्तम्- -यम् माशि १६, १०
स चिति- -तिम् आश्री छ, २, २२
स चिय आश्री ६, १०, २०, शाश्री
स चित्वा वीश्री ५, ४, ४
सं✓चिन्त् > स-चिन्त्य वैशि ३६२
सं✓चुद्, सचोय्य वैताश्री छ, ८, १
सं✓च्यु सच्यवे वा १४, ६
सं✓छद्, सज्जयति माश्री १, १,
५, २६, ६ १, ५, ८, ८, १६,
२, ६, २६, वाश्री २ १, ८, ७,
३, २ १५, वीश्री ३, ६ ३

a) = मार्ग- (सु सरब्दुं टि विवरणकार, वैदु [सरब्दुं] श-दन्वी श्री- इति) । b) पामे वैप १ सपुत्रन्ती तै १ ७, ७, २ टि द । c) सपा आपश्री ८, ७, १९ अन्वयेतवा इति पामे । d) वैप १ द । e) नस । f) उन्वयेत् सचिरार्थे (सु आपश्री) । g) परस्पर पामे । h) चयन इति ० ।

स-उन्न- -न्ता अत्र ५८, १, ४.
 स-शावत्- -यन्व वीथी १, ४
 २५
 स-शादित- -तस्य वाथी २, २, ४, २
 स-च्छिद् > स-छिय वीथी २०,
 ४९ : ३, वैथी १८, ६ : ५९,
 हिथी ४, ५, १७, संछिद्यस्य छिय
 वीथी १५, १९. ५
 ✓सञ्ज् ✓सञ्ज् द
 स-जगमान- स-जगत् द
 सं-जहान- स-जहा द
 स-जन्, सजायते अत्र ७०^१, ७, १,
 वृदे १, २९, माथि १, ५, ७,
 संजायन्ते अत्र ७०^२, १०, ३
 सम् जनेय वीथी १८, ४५.
 १९
 स जनन- -नात् वाथी १८, २४,
 २३.
 स-जाल- -त. गीपि २, ६, २९,
 -सम् वा ५२, ३६.
 सञ्जनी- ✓सञ्ज् द
 स-जप् > स-जत् -> स-शिव-
 निर्माहव-दान- -नात् अत्र ३६
 २८, १
 स-जान- -नात् वाथी ३, २, ५,
 ४६
 स जानान- स-जहा द
 स-जि, सजयति वीथी १६, २२ :
 ६, सजययत् आथी ९, ९, ७,
 शीथी ६, १०, ५, आपथी १७,
 २१, ७
 स-जिष्णु आथी १९, २७,
 १९, समजेषम् आपथ १, १६,
 ६१

सं-ज्य, या- -यम् लाथी ७, २,
 १^०, -संवा वीथी १, १२ : ३३,
 माथी २, ५, १९, हिथी १, ७,
 २४, आपथं १, १६, ३
 स-जयत्- -यम् वाथी १०, ५
 ३^०, आपथी १६, २, १०^१, हिथी^१
 ११, १, २२, १५, ७, ८.
 सजयन्तो- -न्तीम् कौम् ४१,
 १३१.
 स-जिति- -त्वे काथी १९, ५, ४,
 लाथी ५, ४, १९, वैलाथी ३०,
 १९
 स-जित्य आथी २१, १९, १२,
 वाथी ३, २, ५, ४०, हिथी १६,
 ६, ३२.
 स-जि- (> स-जि-मत्- पा) पाय ८,
 २, ९.
 स-जिहान- स-जहा (त्यागे) द
 स-जीव, स-जीव्य आपथं १, ८, ९,
 पाय १, ८, १९, स-जीवेत्^०
 अथय ६ ६^२.
 स-जीवयत आथी ६, ९, १^१,
 आपथी १४, २०, ८, हिथी १५,
 ५, २४, समजीवयत् वृदे ७,
 १९
 स-जीवन- -यम् विध ४३, ८
 स-जीव (व >) वा- -वाः आथी
 ६ ९, १, हिथी १५, ५, २४,
 अथ १९, ६९
 स-जीव (व >) विका- -का
 आथी ६, ९, १, आपथी १४,
 २०, ८, अथय ६, ६.
 स-जीव्य वृदे ५, १६
 स-जुप् > स-जु (द) वा- दाम्

माय १, ७, ११
 सं-ज्ञापन- प्रत् स-ज्ञा द
 सं-ज्ञा^१, संज्ञाकीये शांथी १५, २६,
 ११^१, सजानानि वा १४, १०,
 सजानाने वीथी १५, ४, १६,
 १ : ३, ४, ६, वाधुथी वे ७१
 ३, वा ४, १०, सम्-ज्ञानताम्
 गीपि २, ६, २२^१, स-ज्ञा
 (ज्ञानताम्) का ७ १५, ५, ६६,
 ७, कौम् १२, ५, सम्-ज्ञान
 तात् वैलाथी २४, १, स-ज्ञान
 थाम् काथी ३, ६, ४, आथी
 ३, ५, ९, वाथी १, ३, ६, ६, वैथी
 ७, ५ : ११, हिथी २, ४, ११,
 शुष १, १२७, स-ज्ञानोपय
 कौम् १२, ५, चाय ८ : ३,
 अथ ६, ६४.
 स-ज्ञाशास्त्रा आथी ९, १६,
 ६, वीथी २८, ६ : ५, वैथी २०,
 ३४ : १०, हिथी १५, ६, ९
 स-ज्ञापयति माथी १, ८, ३, २०,
 आथि २, ५, ८ ५^१, स-ज्ञापयि
 शांथी ४, १७, ११, आपथी ७,
 १६, ५^२, २०, १७, ९, गीथी
 २, ९ ३१^१, माथी, वाथी १,
 ६, ५, २^३, वैथी २०, १३ १०^३,
 वीथ २, ७, ८^४, ११, ९^५,
 स-ज्ञापय वाथी ६, ५, २०^६,
 स-ज्ञापयताम् हिथी ४, ३, ५१^१,
 स-ज्ञापयत आपथी ७, १६, ११^२,
 वीथी ४, ६ : १७^३, ११, ४^४
 १८, १५, २८ : २८, माथी,
 स-ज्ञापयेत् वीथी २५, ३४ : ३,
 शय ३, ४, ६

a) वेप १ द । b) = ताम विवेक- । c) वेप १, १३७१ d) द । d) एषा, तता २, ४, ३, १ ।
 ४, १२, ३ संज्ञय इति शोधे । c) सजीवयत इति शोधः (तु आथी, प्रय एषा मं ४, ८, ७ च) । f) वा १,
 ३ ४६, २, ३, २२ परागुष्ट द । g) परररर शोधे । h) गता, वीथी ४, ६ : ३३ हिथी ४, १, ५२ निम्नन्ति इति
 शोधे । i) स-ज्ञापयि इति वाठ ? वनि शोध (द. अथ. शोधे) ।

संज्ञापयन्ति आपथी २०, १९,
८; वीथी १८, २५: १४.
संज्ञम् (अविज्ञिषत्) वीथी १३,
२०: १४.
संज्ञिशासीत वीथी १३, २०:
११.
संज्ञश(न>)ना- ने आपथी ५,
१, ७^{१३}.
संज्ञ-जागत- -ना: आथी ४, ७,
४; शाथी ५, १०, ७; वीथि
२, ६, २२; -नेषु शाथी १५,
२५, १^७; -नी^० आपथी ३, ९,
१०; वीथी २४, २९: १६;
माथी ३, ८, ११; द्विथी २, ५,
११.
संज्ञपन- -नम् वीथी २०, ३४: ९.
संज्ञ-सप्त, सा- -स: काथी ६, ५, २२;
-सम् आथी १०, ८, ८; शाथी,
-सा: शाथी १३, २, १३^०,
-सात् वीथी २०, १४: २;
-सात् वीथी ११, ४: २०, १५,
२९: १३; -सात् आपथी
१६, ७, १२; -सात् शाथी १६,
३, ३३; १३, ७; -साया: शाथी
४, १४, १४; वीथि ५, ३, ३;
आथि २, ५, ८: ५; माथ २,
१६: ८; -सायात् वीथि ३,
१०, २६; शाथि ३, ४, ७; वीथि
४४, १७; -साथि वीथी २, ९:
३१; आथि ३, २, ५: ७; वीथि
२, ७, ९; ११, १०; द्विथि २, १५,
५; -से आथी ३, ३, ६; आपथी
७, १७, ३; २०, १७, १०; माथी;
-सेषु शाथी ९, १०, २.

संज्ञस-वत् वृदे ४, २९.
संज्ञस-होम- -ना: आपथी १४,
७, ५; वीथी २५, ३४: ५;
वीथी १७, १०: १०; द्विथी ९,
८, ३७; १३, १, २४; -नम्
आपथी ७, १७, ३; माथी ७,
१३, ५; माथी १, ८, ३, ३४;
वीथी १०, १३: १५.
संज्ञसा (स-आ) हुति- -तिम्
वीथी ४, ६: ३७; ११, ४:
२१; १५, २९: १३.
संज्ञपवा वीथि ४, ३: १८.
संज्ञप्य आथि १, ११, १०; २, ४, १३.
संज्ञप्यमान- -न: काथी २५, ९,
१३; -नम् शाथी ५, १७, ११;
वीथी १५, २८: २६; माथी १,
६, ५, ३; माथि २, ४, ४; वीथि
६४, ८; -नात् माथी ७, १३,
३; -ने आपथी २०, १७, १०;
माथी १, ८, ३, ३२; वीथी १०,
१३: १४; द्विथी ६, ८, ४, १४, ३,
५७; -नेषु वीथी ३, ४, ४, ११.
संज्ञा^०- -पाथ ४, २, ६^०; ५, २,
३६; १७; ११६; -ज्ञया पावा १,
१, ३; २, २८; -ज्ञा वीथी ११, १०:
६; सा ४७, ३, ४; वृदे २, १३४;
नाथि १, ४, १२^०; वा १, ४, १;
वीथि २, २, २२; -ज्ञा: काथ १,
३, १०; द्विथि ५, ११; -ज्ञाथि:
वाथी ३, ४, ३, १७; -ज्ञायम्
दुथा ४, १००; अथा १, ९, ११;
शीन ४, ६७; वा २, १, २१;
४४४४; पावा ३, १, १०९;
११४; -ज्ञासु पाथु ७, २९; वृदे

३, ८२; ५, ९३; वृथु ३: १३.
सांज्ञिक- वा ४, २, ६०.
संज्ञा-वरय- -वाम् वा १, ३;
पावा १, १, २७; ३, १, ३; -वाम्
पावा १, १, ६२; -गे पावा १,
२, १.
संज्ञा-वरया(स-म)र्थे- -र्थे:
पाथ ३, १, ६२.
संज्ञा-कारिद्- -रिभ्य: पावा ४,
१, ९३.
संज्ञा-योत्रा(न-म)धिकार-
-नात् पावा ४, १, १०४.
संज्ञा-वृण- -वाम् पावा ४, २,
२, ५, १, १०.
संज्ञामहया(स-आ)नर्वय-
-न्यम् पावा ३, ३, १९; ८, २, २.
संज्ञा-छन्दस्- -न्दसो: वा ४,
१, २९; ६, ३, ६३.
संज्ञा-शापक- -कम् पावा ६, १,
१६८.
संज्ञा(शा-या)दि- -दिवु पाथवा
२, २.
संज्ञा(ज्ञा-त्र)धिकार- -रा: पावा
१, १, १.
संज्ञा-नियम- -मे पावा १, ४,
८; ३, ४, ६७.
संज्ञा-निर्देश- -शा: पावा १, ४,
२३.
संज्ञा-निवृत्त(वि-म)र्थे- -र्थम्
पावा १, ४, १, ५६; २, १, ३.
संज्ञा(शा-अ)तर- -रयो: वा ३,
२, १७९.
संज्ञा-पूणी- -पयो: वा ६, ३,
३८.

द) पाथे, वीथ २, ३६. संज्ञाये वीथा १, २, १, २ द्वि. द. १ b) सप्त. ऐसा ७, १७ संज्ञानामेषु इति पाथे. १ c) पाथे, वीथ १, ६६७ द्वि. द. १ d) द्वि. सप्त. वीथा ३, ७, ८, २ आपथी ९, १८, ६ प्रथ. सम्प्रसारणा इति पाथे; ०. व १ e) नाथ, उत्पत्तिपाद-अन्ध- द्वि. पाथ. १ f) द्वि. पाथ. १ g) संज्ञा, इत्यम् > संज्ञेन इति लोपे. १।

संज्ञा-प्रतिषेध- -वात् पावा ३,
१, ११२^१, -धे पावा ३, १,
११२

संज्ञाप्रतिषेधा(ध-आ)नर्थ
पय- -यदम् पावा १, १ ६८,
५ १, २८.

संज्ञाप्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-
-थेम् पावा १ १, ६८

संज्ञा प्रमागव- -न्वात् पा १
२, ५३

संज्ञा प्रसङ्ग- -न्त पावा १, १, १

संज्ञा प्रसिद्धि- -द्धि पावा १,
२, २९, ४३

संज्ञा वाचन- -न्म् १, ४, ९९

संज्ञा भाव- -वात् पावा १,
१, १

संज्ञा(ज्ञा-अ)भाव- -व पावा
२ २, २४

संज्ञा- -वा पा ५ २, ९७

संज्ञा विधि- -धी पावा १, ४,
१४

संज्ञा विशेष- -व शुभ ५ ७,
-वा कथ १, ३, ७, मोक्ष ७,
२, १६

संज्ञा सध सूत्रा(न-अ)भयवन-
-नेषु पा ५ १, ५८

संज्ञा-सद्वय(सि-अ)सदेह-
-ह पावा १, १ १^१

संज्ञा-समावेश- -शात् पावा १,
४, १

संज्ञा समास-निर्देश- -शात्
पावा १ ३ १०

संज्ञा सप्रत्यया(य-अ)र्थ- -थे

पावा १, १, १

संज्ञा सिद्धि- -द्धि पावा १,
१, १

संज्ञित- -वा ५, ३, १६, -त
शथ २८६, -ता शैथि २१,
३१

संज्ञिन्- -वा ५ २, ११६, -द्धि
पावा १, १, ७१, ४, २३

संज्ञो(ज्ञा-उ)पवनध- -न्ध मीस्
२, ३, १०, -न्धात् मीस् २, ३,
१४, ३, ५

संज्ञो(ज्ञा-उ)प्रसन्नं-प्रतिषेध-
-ध पावा १, १, २७

संज्ञी(ज्ञा-श्री)प्रत्य- -प्रथो
पा ६, २, ११३

संज्ञात्-> 'थ रूप'- -य शुभ
१४, ५४^१

संज्ञान- -न्म् शश्री ३, ६, ३१,
काशी, -नात् या ४ २१, -ने
वृदे ८, १५^१, माशि १३, ६,
-नेन वीधि २, ६ २२^१

संज्ञानी^१- -नी आश्री २, ११,
१०, माश्री ५, १, १०, १, -नीम्
आश्री २, ११, १७, आपश्री
१९ २०, ३, -न्वा आपश्री २०

१, ४, वीथी १३ २० १०
हिथी १४, १ ४, हिथी २२
३, १९ -न्वै वीथी १८, २५
१३ हिथी २२ ३, २०^१

संज्ञानी(नी इ)धि- -थ्याम्
वीथी २४ ३ ११

संज्ञाने(न-इ)धि- -थ्याम्
वीथी २६ ५ ३२ ६^१ १४

संज्ञा^१- (> साज्ञानि-)
संज्ञानात् शिष- (> साज्ञानात्
शिष्यायनि-)

संज्ञा- (> साज्ञिका, श्री- पा)
पाग ४, २, ११६

संज्ञ- पा ५, ४, ११९

संज्ञ^१ज्वर- -न् वृदे १,
२८, ५६

संज्ञानि- -वा ३, २, १४२

संज्ञ^१ज्वल् सज्वलति कथ २४, ३, ३

संज्ञ^१ पावा भा पर शयने

संज्ञ^१- (> साज्ञ-)
संज्ञ टा^१- (> साज्ञि- वा) पाउयो
२, २, ९६^१, पाग ४ १, ६०^१

संज्ञो(ज्ञा-उ)हरण- -न्म् वा ३१
६

संज्ञालु-> 'लु प्रप्ता'- -प्ते पाठ
१, १५, ४^१

संज्ञ^१ पावा जुटा पर हितापात्

संज्ञ^१ पावा जुटा पर अक्षरपर
गन्वो

संज्ञ^१-> सगक-याभ्रव-
संज्ञ- पाउयो २, २, ११५

संज्ञ^१- पाग १, ४, ५०^१, ५, ४,
१८^१

संज्ञान्- -वा ५ ४, २८

संज्ञ^१ वरिन्- -न्म् विध ९ १९^१

संज्ञ^१ छिन्-क्षेन्- -त्रेणु विध ३०,
३१

संज्ञ-जन- -नेम् वीध ३ २ १०,
१३, -न्वै कथ २६४

सत् > 'थ-वहिक'- -रुत्तव
उनिस् ७ ४०, कथ १८, ३,

d) वस । e) वैर १ ३ । f) न्वे इति पाठ १ अनि शोध (हु प्रापश्री) । g) संज्ञानी इति
बोध (हु सत्सुद्धिं टि) । h) पृ २२९२ m द्र । i) पृ २२५६ v द्र । j) = [लभ] को सत्सुद्धि ।
क) वृ १ । l) < संज्ञ । m) पृ २४०६ k द्र । n) पृ २३०० c, d, e द्र । o) हु BFG ।
p) पृ २३५७ छ द्र । q) वीध १, ५२३ d द्र । r) आदरे कन्व इति पाठम् । s) हु पाठम् । t) कथि
मुपागम इति पाठम् । u) बोध पूर्वेषु समस्तमिति । v) कथ > कथ । w) = उ दो निरुप ।

-दित्तः अम ६, २०, ८, २, १४,
२; १५, १३, १८, ४, उमिस् १ :
४७, ५ : ३९; पि ३, ३८.
सतो वृद्धी^०- स्त्री शांती ७,
२५, ३, २७, ८, निस् १, २ : २८,
५, ३ : २१, अम १, ८, ४४४,
शुभ, पि ३, ३६, -नी. लाश्री
१०, ६, ८, १३; ७, १२, निस् ५,
३ : २०, ५ : १५, १८, २३,
-तीनाम् लाश्री १०, ८, ५,
-तीम् निस् ६, ८ : ३२, ८,
६ : ४, शुभ ३, २४३; -तीसु
निस् ६, ११ : २३, -त्यः
लाश्री १०, ८, ४, निस् १, २ :
२९, ५, ३ : १४, अम २, ८,
१०३; १०, १४०; शुभ २, १३५,
३, २५७, उमिस् ७ २६, -त्या.
शांश्री ७, २५, १३, २७, १९,
-श्री अम २, ५, ५३, ५६.
सतोवाहृत^०- स्वम् निस्
५, ४ : २२, -ता लाश्री १०,
६, ६, निस् ५, ३ : १५, २६,
३५, ४ ११, -ते निस् ५, ५
१९, -ती लाश्री १०, ८, १
सातोवाहृत-शेष- प.
शाश्री १०, ६, १०, १७, ७, ८
सतोवृद्धि (तो-अ) विशेष-
पन् निस् ५, ३ २५, ३४
सतोवृद्धि (तो-अ)न्त^०-
-स्त्री अम १८, १,
सति दिष्ट-स्वर-बलीवस्व-
-स्वम् पावा ६, १, १५४
सत्-स्वम्-निरत- -श विप ३, ८०
सत्-कुल- -कम् अम ६९, २, ५,
-कार् काथ २८१ ८,

सत्-कृ पा १, ४, ६३, सत्कृपा^०
विप १४, ५
सत्-कर- -श्री अम १, ४१, ७,
अतां ११, ७
सत्-कृष्य अम ६५, २, ८, विप
१९, ६, ६७, ४५
सत्-विद्या- -याम् वाप ११,
२८, वीप २, ८, २२.
सत्-श्रवण^०- -यानाम् अम ५८^२,
४, ३.
सत्-वम, गा- -म वीथी १५, १ :
१४, ८ : १६; वाश्री ३, ६९
३१, -मा शांश्री १६, २३, २७,
-माम् शांश्री १६, २२, २८
सत्-वा-> -ता मात्र- -त्र वैप १,
११, ३.
सत् (सत्-स्व), स्व^०- पाग २, ४, ३१,
४, ४, १९६, -स्वम् शांश्री ३, ४,
९, ५, १५, जैप, -स्वत्य वा १,
२, २०, २, १५, -स्वानाम् अम
६४, ३, ३, ४, ७, ५, १०, वाप,
-स्वापि अम ६२, ३, ५, ७१, ४,
१, ७, ३, आपथ १, ३९, १९,
हिप १, ८, ३८, वृदे १, ८१,
वा ९, १, -स्वे गोम् ७, १, ४,
-स्वै वा ६ ३०६.
साख^०- -स्वम् या ६ १६
साखिक्, का- पा ४ ४, १९,
-कामि. वीपि १, ४, १
साखिकी- -की अम
३०^२, १, १०
सत्त्व नामन्- ममि शा १, १
सत्त्व-पूर्व^०- -वं वा १, १३
सत्त्व-प्रवात^०- -नालि वा १, १.
सत्त्व भाव- -ये अत ५, २, १

सत्त्व-भूत- -तम् या १, १
सत्त्व युक्त- -कम् अम ३, १,
१३.
सत्त्व-रूपा (प-अ) ति-द्वार-
-नेण वैप १, ११, ४.
सत्त्व-लक्षण^०- -ण १४, ३
सत्त्व-वत् गोम् ६, ३, १२, ७, १, २
सत्त्व-वत्^०- -वते माप ३, १० :
५, हिप २, १९, ६
सत्त्व विद्वंशिक्ष- -शिय अम
५८^२, ३, १.
सत्त्व-सगति- -ति वृदे १, २९.
सत्त्व (त्व-अ)न्तर- -रे गोम् १,
१, ९
सत्त्व (त्व-अ)भिधापक- -कम्
अम १२, २५
सत्त्व पति^०- -ति शांश्री १, ५,
२९, ४, ८, ८, शांश्री, -तिम्
शांश्री २, १६, ११, ४, ३, २, ११,
६, ७, ६, ९, ९, ५, १६, आपथी,
-क^०ती शांश्री ४, ७, ४, शांश्री
५, १०, २१.
सत्त्वति-भोपति-वृद्धा समुद्र-
-ना नास्ति २, ३, १०^१
सत्त्व-पुत्र- -त्र वैप ३, १५, १३,
-त्रम् आमिष्ट २, ७, ६ ३५,
वीप २, ९, ८, ९
सत्त्व-पुत्र (>)न्त^०- पावा ४, १,
६४
सत्त्व-प्रभव- -स्वम् या ३, १३
सत्त्व-स्व^०- -स्वम् वीप १, ५, १००
सत्त्व-सन्धारयान- -नात् पावा १, १,
६२.
सत्त्व-अर्थ^०- -श आपथी २२, ३,
१२, शिप्री १७, १, ५०, -स्वानाम्

a) = अतो विशेष-। b) विप । जण् प्र (पा ४, २, ५५) उभयपरसंक्षिप्त । c) वस । d) अश्री
नाप अम् पाठ । e) हु पाठम । f) सत्येदमीय जण् प्र । g) न्वप । h) वैप २ द्र । १) 'हा
समुद्र इति तासं । j) = ओपधि विशेष-। k) = प्राञ्जण-स्व-। l) क्त ।

<p>वीथी १५, १:१४, ८:१६. सद्-असद्- पाग ५,२,६१;-सतोः श्रे ८,१४०. सादसत्- पा ५,२,६१. सद् भा (आ>) रय- न्यम् वामिण ३,१०,४-१. सद्-आधार- न्य वैष २,१,१. सदाचार-न्य- न्यात् वाम ६,८; विष ७१,९२. सद्-भादि- न्य: पावा ३,२,१२६ सद्-गुण->सादगुण-> न्य- सामर्थ्य- न्यात् आपथी १९, १८,१४. सद्-गुम्भन(न-अ)न्तरा(र-अ) भिज्ञ- आ वैधीना २१५ सद्-ग्रह- (> साद्ग्रहिक-) सद्-न्य- न्यतो आथी १०,१,६, आथी २,२, १३, ३, १३, २१, आपथी ६,३१,३, ४, वैथी ८, २-५ सद्-आउपभा(ग>)गा- नो वाथी ३,१२,४. सद्-विपार्हित- नै: आज्यो १३,१ सद्-महद परमो(म उ)तमो(म उ) रुह- धा. पा २,१,६१. सद्-मात्र- नै: पावा ५,२,९४ सत्- नम् आपथी १२, १, १७, ४, ९, वीथी, -तयो वीथी ९, ११ ७, -तात् वीथी १०, २८:८, ११, ३ १८, -तानि वीथी ९, १३ २, -ते काथी १९, २, ९, ४, १३, आपथी १८,१३,२१,२२, वीथी, -तेषु वीथी २२, ३. २७ सत्-तक्षन्- न्वा काथी ६,१,५</p>	<p>सत्-तण्डुल- न्य वैष ५,६. २५. सत्-नत्- नती वीथी १४, ७; २३, २६, ७:११; वापथी ४, १०२:१२१. सतत- सं/तत् द सतति- -ति भाग ३,१५-१० सत्-तनु- न्य: वापथी ३, ४२:१०, ४,२०:४, -नितुम् आपथी २, ८, ६, भाथी २,८,९, माथी. निसतनु-न्य- न्वाथ वीथी १४, ११ २१, भाति ११६. सत्-त-प्र-न्त्रा- न्यस्य आथी ११, २,१७, ३,७, ११; ४,७, -न्त्रा. आथी २,१५, ९; -ने वसू २, १४. २०. सितप माथी २,१,२,३६१. सत्.पदक्ति- सत्- द सत्-तयादेव(वा>)त- नम् वीथी १७,२५-२६:२, ४ सितवश्यावीर्य- न्यानि निम् ५, १ ४. स-तालु, नूनपित्र- न्य- पित्र- वीथी २०,११ ४२, -पित्रभाग आपथी ११,१,५, -पित्रिणि पाप २,११,८, -पित्रो काथी ८, १, ११ सत्-ता(र>)रा- ना अर ५८:४, १७ सत् तालवृन्त- न्येषु विष ९२,१३. सति- न्यम् द सत्-तिल,ला- न्य कप्र ३, २, ७, -न्यम् वैष ३,१४ १४,४,३ ७, ५,६ १९, १५-४, कप्र ३, ३, २, -लानि वैष ६६-८, धप २१७, -लाभि उर २,२, ३,</p>	<p>-नेन वैष ५, ३ १२, -नेषु वैष ५, १३ १० सत्-तिल-कुदा-गन्धो(प-उ)दक- -न्यानि शप २१३. सत्-तिल गन्ध->१गन्धो(न्य- उ)दक- -नेन भाग ३,१७ ६ रसत्-तिल-गन्धो (न्य उ)दक- -न्यानि शंउ ४,३,४, गौपि २,६, १८ सत्-तिला(ल म)क्षत- न्यम् वैष ५ १३ १४, १९. सत्-तिला(ल-म)क्षत पवित्र- न्य वैष ५,१३:१८ सत्तिशिष्ट- सत्- द सती- न्यम् (मुनि) द सतीर्य- न्यम् या १४,११ निसतीर्य- न्यम् निप १, १२, वा १४,११ सत् तीर्थ->न्य- पा ४,४,१-७,६ ३,८७ निसतीर्य- न्यम् वैष २, ४ ६ सनुल- (>सातुलीय- पा) पाग ४, ३,८० सत्-तु(ल>)ला- न्यवा आपथी १०, ७,३, भाथी १०, ४, १३, वीथी १२,७ ७, द्विथी १०,१,४६, -न्य वीथी ६, १ ८, १५, -लानि माथी २,१,१,३८, माथ ६,११, ८, -न्याम् वीथी ६, १:४ सत्-तृथ- न्यम् राथी २, ६,६, १७, वप ६३, १७, विप ७३, २५, -न्याम् आपथी २, १,५, भाथी २, १, ७, माथी सत्-तृतीय- न्य द्विथी १६, ५,२९, ३६</p>
---	---	---

a) वल । b) घृ २४९९ b द्र. । c) वैष १३ द । d) = सत । e) = सत्ति (विप १) ।
f) = साम विधेय- । ध्यु १ । g) वीथी पाठ । h) उप = उतरका- । i) वल । j) = सत- ।
k) पक्षिपतासरीरमिति भाग्यम् । सति सतीरे इति विपर शोध इति उत्पत्ति- वि. । l) इ पागम ।

सत्त्व- वाडमो २, ३, ६१.
 सतो-मृगती- प्रमृ. सत्- द.
 सत्त- √सद् द.
 सत्ता- सत्- द.
 सत्तृ- √सद् द.
 सत्त्व- सत्- द.
 सत्त्वत् १, १८१- (> सत्त्व
 १, १८१-] - वा.) पाग ४,
 १, ८६.
 सत्त्रि- वाडमो २, १, २२६.
 सत्य, त्पा- वाडमो २, ३, ४; पाग
 ४, ६२; -फ०त्व आधो ७,
 ११, ३९; शोभो; -फ०त्व आधो
 ३, ८, १; ४, ११, ५६; ७, ४, ९;
 ८, ७, २४; शोभो; -त्वम् फ०माधो
 १, ११, १३५; १०, ९, १९;
 शोभो २, ६, ११५; ५; वाधो;
 वापधो ६, ५, ४५; बोधो ३,
 ५; १५; वैताधो ७, २०५;
 प्राय १, ५, ४५; अय ४८, ७५;
 शंय १०७; ११६: ६१९, ६२०;
 १३६; आपधो १, १२, ५५; निष १,
 १२५; वा ३, १३६; वा ८, १,
 ३०; पाग १, ४, ५७; -फ०त्वस्य
 आधो ६, १२, १२; ८, १, १०;
 शोभो ८, १०, १; १२, २४, २;
 आपधो १३, १८, २; वाधोतं;
 बोधो ८, १०: ६; माधो २,
 ५, ४, १३; द्विधो २, ४, ५८;
 वैताधो २३, १५; -फ०त्वा शोभो
 २, २८, ९; आपधो ४, १०,

६५; बोधो; -फ०त्वा: शोभो ४,
 ९, १; वाधो ३, ८, १; बोधो १४,
 ९: ३०; १५: १२; माधो;
 -फ०त्वात् आधो ६, १२, १२; १२;
 शोभो ८, १०, १; माधो २, ५,
 ४, १३; वापधो २, १२: ३;
 वैधो १६, २२: ५; द्विधो ६, ५,
 ११; २, ४, ५८; वैताधो २३,
 १५; वैधो १२: ९; वैध ३,
 १, १०; -फ०त्वानाम् शोभो ४,
 १०, १; बोधो १०, ५६: १; पाग,
 -त्वानि साधो ८, ९, १२; १;
 -त्वाम् आधो ६, ४, १०; विष
 ८, ३८; -फ०त्वाम् शोभो २, ७,
 १४; २, २६, १; वाधो ११, १,
 २१; १५, ४, १०; १७, ११,
 ९; आपधो ९, २, ६; १६,
 ३१, १; वाधोतं; द्विधो १५,
 १, ४५; -पास: कौम् ८७,
 २२; -२वे फ०माधो ५, १०,
 १; १०, ९, ४; १६, ३१, १;
 बोधो; -२वेव आधो १, १३,
 १५, ८, ११, १५, ९, ७, ३६;
 फ०माधो २, ६, १०; ५; वाधो;
 आपधो ६, ५, ४५; माधो ६,
 १०, १५, वैधो २, २-१५;
 द्विधो ३, ७, २३; कौम् ३,
 ४५; -२वेव आधो ९, २८,
 ९, -फ०त्वाम्: आपधो १६,
 ३१, १, वैधो, -२वो वा ६, १२.
 सत्य- वा ४, ४, ६२.

फ०त्व-कृत- -त्वाम्माधो १, २,
 ४, २५; माधो १, ६, १, १०;
 वाधो १, ५, २, १५.
 सत्य-कर्म- -सं गीध २३, १३.
 सत्य-काम- > सत्यकामि- वा,
 पाग २, ४, ५९.
 सत्यकाम-आज्ञ- -त्वम् वैध
 ४, ८, ७.
 सत्य-प्रनिध- -न्यता काय २२, १५.
 सत्य-काम- (> सत्यकामि-),
 सत्य-कार- वा ६, ३, ७०; पाग ४,
 १, १५१.
 सत्यकार्य- वा ४, १, १५१.
 सत्य-भित्- -भित्ति बोधो १०,
 ५३: ३; माधो ६, २, ५, २३;
 -भित्ति शंय ११६: ५१.
 सत्य-भित्- -ता: अय १, ४०, ५;
 अर्थ १०, ५.
 फ०त्व-भित्- -२वे साधो १२, ५,
 ४; साधो ५, ४, १९; वैताधो
 ३, १९.
 सत्य-ज्ञ- -ज्ञा: वा ११, १८.
 सत्य-ज्ञ- -दाम् आभित् १, २,
 २: २२; बोध ३, १, ५.
 सत्य-दूत- -ता १ वाधो ३, १, ४,
 ४५.
 सत्यदूत- > ७०तानाम्-
 द्विध- -द्विध् आधो १८, २१,
 १६.
 फ०त्व-दूत- -निध- -निध- आधो २२, २५, १३;

a) सत्त्व- इति पागम. । ण्ड इति पाका. । b) वैप १ द. । c) पागे. वैप १, २१९२ ० द. ।
 d) पागे. वैप २, ३८. अत्रेव तैसा २, १, ११, १ टि द. । e) सभा. मंसा २, ४, १० सत्ये इति पागे. ।
 f) = लक्ष- । g) = अत्रिरोविशेष- । h) विवेकेवाऽन्यतम- । i) पागे. पृ २४९१ f द. । j) पागे.
 वैप १ सत्यस्य रि ५, २२, ४ टि. द । k) वा. पृ १९३९ ४ द. । l) पागे. वैप १, २४९३ b द. ।
 m) पागे. वैप २, ३८. अत्रेव तैसा २, १, ११, १ टि द. । n) तु. पाग. म. ११. १२५५ इति पागम. प्रमृ. ।
 o) = प्रत्य-विशेष- । p) तानाम् इति शोषः (तु आपधो.) । q) सत्य- अण् प्र. (वैत. P. ५. प्रमृ.
 तस्येवमीयः प्र. इति १) ।
 वैप-४-५०

द्विती २३, ४, ८
 सत्यदूत-दक्षिण- विभिः माधो
 ५, २, ७, २५
 सत्य देवता-> एवं (त्य) > > > > > >
 -त्या रात्र १, ६२५
 सत्य-धर्म- -मंग ७ माधो ९,
 २८, ३, माण्ड १, २३, ८, या ११,
 ११, -मा माधो १२, १५ ५,
 माधो १, ३, ५, १७, माधो १,
 ३, ७, १७, काय ४०, १०, माण्ड
 १, ११, २०, कौमु ३, २, गौष
 ९, ६८४, -मार्ण माधो ६,
 २ २४, कौमु ६८, २६
 सत्य छति- -ति ऋत २, १०,
 १८५, शुच १, १९५, साध १,
 १९२
 सत्य नामन्- माति या ३, १३,
 निष ३, १०
 सत्य दुष्टि- -शुभे माधो १९, ५
 ५, माधो ५ ४, १९, वेताधो
 ३०, १९
 सत्य-पूत- -त विष ८३, १२,
 -तम् विष ९६, १६
 सत्य प्रसव- -व. आधो २, १२,
 ५१, ४, ११, ५, १०, ६, ८,
 माधो १६, १, २०, १८, ३१,
 -वस्य वीधो २८, २ ३१, -पाय
 माधो ९, २६, २१, माधो १,
 ८, ७, माधो १, १३, ३.
 सत्यम् उमा-> सायसुम- -प्रम्
 वैष १, १४ ८.

सायसुमि-> मि-साय-
 नीय- -यानाम् आशि ६, ९,
 सायसुमी- -सुमा- वा ४,
 १, ८१.
 सत्य-युग्- -युग वीधो २, ९ :
 ११, माण्ड २, ११ : ७.
 सत्य-राजन्- -जन् शुमा २,
 २०, -जा वीधो १२, १५ १,
 -जा ३२, आपधो १८, १९, ६,
 वीधो १२, १५ ८, द्विती १३,
 ६, ३२, -जान- वीधो ३, ३,
 ३, ३१
 सत्य-राधन्- -धः आपधं १,
 १४, ३, -धस. आपधं २, ११,
 ३
 सत्य-य-य- -तीभ्याम् माधो
 ६, १०, १
 सत्य-य-य- -यि- -यि वीध २, ५,
 २७
 सत्य-लोक- -कम् अण १३, ५, ६,
 शष ११६ ६६
 सत्य-यचन- -न्म् आपध १, २३, ६,
 द्वि १, ६, १४, गौष २, १३, १३,
 ३१, १२, १६, -ने गौष १३, ८
 सत्य वत् मीध १२, १, २२
 सत्य-वत्- -वन्त् विष ८, ८, -वान्
 वाप १६, २०.
 सत्य-वदन- -न्म् माधो २ ३ २४,
 ३, १३, ३०, माधो २, १, १३,
 पाण्ड २, ८, ८
 सत्य-वर्षित- ता अण्ड ०, १६, ३
 सत्य-वसु- -व् अण २३०

सत्य वाक- केन कौमु ९९, १
 सत्य-वाच्- -वाक् शष २४४, गौष
 २३, २९, -वाचे वीधो १२,
 १९ : ११.
 सत्य-वादि- -वी माधो २, १, १३
 २९, १, १२, आपधो
 सत्य-वृष्- -वृष या १२, ३३
 सत्य व्यवस्था- -स्था गौष १३ १
 सत्य-वत-> वत- -वति शष
 ५८, १, ३
 सत्य-वत, ता- -वत वैष ४, ५
 ३३, -त माधो ३, ८, ११
 -तानाम् वाप २३, १४
 सत्य-शील- -ला आपध २, १५
 ११, द्वि २, ५, १९२, -सत्
 आपध २, २६, ४, द्वि २, ५,
 १९९.
 सत्य-शुक्ल- -क्लम् वीधो ३
 १६ ८
 सत्य श्वस- -वस निण्ड ७, ५
 २१, -यसे माधो १९, ५, १,
 माधो ३, २, ७, ३१, वेताधो
 ३०, १०, वीध ३, ९, ५, माण्ड
 ३, १० ९, द्वि २, १९, ६, -वा
 ऋत २, ५, ७९, साक १, ४, १
 सत्य धी- -धी काण्ड २४, १३
 सत्य सक्त- -त. माधो ४, १,
 ११, माधो २, १, १०
 सत्य-सगर- -र या ३, ५
 सत्य सद्- सत् आपधो १६, २९,
 २, माधो १, २, ४, २१, माधो
 सत्य सव- -व वीधो १२ १५

a) वैष १६ । b) पाणे पृ २१०१ ० द । c) वैषु (पसे) भाष्यम् 'मे' इति प्राति शब्दोपेय
 म्प्रसामिति । d) ध्यम् । e) तु ज्ञान । सत्यम् इति मा ३१ । f) पाणे वैष १ सत्यप्रसव मा १०, २८ टि द ।
 g) = सायसुम । h) सभा धाञ् (मा २०, ४ का २१, ७, ३ च) <> शत्रुञ् (तै १, ८, १६ २ काठ ३८, ४
 तैत्र १, ७, १०, ६, २ ६ ५, ३ च) इति पाणे । i) पाणे वैष २, ३३३ ऋतुम् तैमा २, १, ११, १ टि द । j) वेता
 द्वयस्य हस । k) पृ २२५५ ० द । l) सत्र आण्ड १, २, २१९ सत्रधवे इति पाणे । m) विष (गर्त-)
 जत वप स/पु[धन्व] अधिवरणे ल्द ।

२, याथी ३, ३, २, २५, द्वित्री
 २३, ६, २५, -सम् आथी ४,
 ६, ३, शाथी ५, ९, ५, निम् २, १
 ३१, -वस्म याथी १६, १७, १
 सत्य सवन^०- न याथी ८, १८,
 ११
 संसत्य-सजस^०- वस योथी ६,
 १२ ९, दाथी १५, ४, ६, लाथी
 ५, १२, १३, -वसम् योथी ६,
 १४ १४^०
 सत्य सामन्^०- म याथी १७, ३,
 २८.
 सत्य-भूयै(वि ऋ)सोम- भालाम्
 घृद ७, १२२
 सत्य हविस^०- वि याथी १०,
 १८, ४, योथी १९, ५ ४१, वैद
 ५, ४ १२
 सत्या/कृ पा ५, ४, ६६
 संसाया ता^० आपथी २३, १८, २,
 योथी ८, १८: ५
 सत्या(त्व-भ)नृत- न्ते आपथ २,
 ३, ३१, आपथ २, २१, १३, वैध
 २, ९, ६, द्विध २, ५, १२२, वैत्रा
 ४, ११
 सत्यानृत(त-भ)वीक्षण-सूत-
 -वम् अथ ४, १६.
 सत्या(त्व-भ)नृनास्या(स्य आ)नं-
 क्षमा दम प्रीति प्रसन्न मार्त्त्या
 (व ऋ)दिता-भापुयं-वर्णि वैध
 २, ४, ४
 सत्यम्(त्व-भ्रन्त)ग्ना- ग्ना

वाध २३, २३, गीध २, ५७
 ✓सत्यावि पा, पावा ३, १, २५
 सत्या(त्व-भ)भिपारित- वम्
 योथी २४, २७. ५१^०
 संसत्या(त्व-भ)पुस^०- यु योथी
 ३, १६ ८
 सत्या(त्व-भ)पाव^०- वम् आथि
 २, ६, ३ ४०, योध २ ५, २७,
 -वस आथि १, २, २ २९,
 योथ ३, ९, ६, द्वि २, २०, १
 सत्यो(त्व-उ)पचदन^०- वम् वाध
 ३०, ८
 सत्यो(त्व-ओ)गस^०- वसम् अथ
 ४ ३६, -पैना योथी ३ १६
 ५x४, योथ
 सत्यरु^०- पा ४, १, १६^०, -क
 योथी ६ ३
 सत्यकि- पा ४, १, १६, पा, पा
 २, ४, ५६
 सत्यापचि^०- वस योथी १९ ३
 ✓सम् पापा युवा वाम सता-
 कियाम्
 रसत्र^०- वम् पा १, १, १७^०, -पैना
 याथी ६, ३, १६, ७, १२, १६x४,
 आपथी, सजे(त्रा-उ) आपथी
 १३, १४, २, वैथी १६, १७
 ११
 सजा-ज^०- वम् याथी १७, ४५ १
 पैसजा जित^०- वित् आपथी १६,
 ३०, १, वैथी, -जित आपथी
 १३, २१, ३, द्विथी ९, ५, ४२

-जितम् याथी १४, ४५, १^०,
 वैत्रा ३, ५
 पैसजा-साह^०- साहम् याथी ६, ४,
 १०, ८, ८, २, ९, ११, ११,
 याथी
 पैसजा^०, पैना-साह^०- वम् आपथ
 २, ८, २ भाप २, २१ १५
 पैसजासाह-> हा(ह या)
 दि- नंदोनाम् अथ ३, १, १६,
 शोच ३, २३
 सजासाहोय^०- वम् छुत् १, ३
 १३, ५ १८, २, ३ १६, याथी,
 -वस छुत् ३, १० १०
 सजासाहोय भुप- वये
 निव् ७, ८ २३
 रसजा-साह^०- (> १साजासाह-
 पा) पा ४, २, १२७^०
 रसजासाह^०- (> २साजासा
 ह-)
 पैसजा हट- हटम् याथी ३, ८,
 १, साम, -हा याथी ७, ४, ४,
 याथी १३ १३, ३१, १८, ८, ८
 रसज- वम् ✓वद द
 सत्व- वद- द
 सत्यरु^०-(> सत्यकि-)
 स^०त्वय- का आपथी १, ५, १,
 द्विथी १, २, ६०
 स^०त्वय- वदथ वप २, ५, १९, ३,
 ८, १३, विध २७, २४, -वयम्
 व २, १०, २
 सत्वस्- पा ४, १, ८६^०, ५ २,

a) पाथे वैप १ सत्यसवम् मा ४, २५ टि द । b) वैप १ द । c) = साम विशेष । d) सयाद्
 भा इति द्विन्द्व शेष (ह व ११२१ V १ वृ ११३०) । e) एषा मे १, ३, ११ सत्यभिपारित इति
 पाथे । f) व्यप । व्यु १ । g) वप = समिप् । h) तु पाथम् । सत्यक- इति भाष्य । i) सत्या- इति पाथम् ।
 j) वाप । वस उप < ✓पि (वैत्र ११७ ० < प्रा-भ्रन्- इति) । भाष्य (वृषे) एष = सत्- इति ।
 k) = स्याद् विशेष- । l) भाप पाठ । m) वैप १ निर्दिष्टयो समावेश द । n) पाथे वैप १ सजासाहम्
 रि ४, ६, २ टि द । o) = साम विशेष- । p) = राज विशेष, तद्विदेश विशेष उक्ति पाथम् । q) तु
 पाथ पाथम्, सा इति भाष्य पाथि । r) = वप- । s) व्यप- । t) वृ २५५५ व द ।

६१, ३, ११७^a, ४, २९^b, ३८^c
सात्वत्- पा ४, १, ८६, ५, २,
६१, ३, ११७, ४, ३८

सात्वत् क- पा ५, ४, २९

सत्त्वन्^d- पाग ५, ४, ३८^b, -खन
कौम् ९७, ८, -खनाम् शाश्री
८, १७, १, -तामि या ६, ३०,
-याम. शुभा ४, ७६.

साखन- पा ५, ४ ३८.

सत्त्वन्त्^e- (>सावन्त- पा) पाग
५, ४, ३८

सत्त्वन्त्^f- (>सावन्त- पा) पाग
५, ४, ६१^b, ४, ३८

सन्त्वर, रा- न अप ६८, ३, १,
-रा अप ७१, १५, १०

सत्त्वल- सत्त्वल- टि. इ

सन्त्सह- रुम् माथी २, ३, १, १८

सत्त्वत्- >सद् इ

>सद्^g पाषा शुदा पर विवरण
गत्वयनादेव, सत्त्वन्त् आशु
२, ४, १४.

सीदति आपथी २ १६, १३,
बोधौ, सीदन्ति आपथी २३, ४,
१, बोधौ, सीदसि कौम् २ ११,

सत्त्वामि आथी १, ३, ३१,
शाथी १, ६, १, कथी, सत्त्वामि
आपथी ५, १५, ५, बोधौ,

सत्त्वामि आपथी १, ७
१३, बोधौ २, ९ ८, माथी,
सीद सत्त्वामि १, १, ३०xx,

शाथी, सत्त्वामि १, २३,
३^h, २, १०, ३ⁱ, माथी १
९, १, ४^j, सत्त्वामि ४ २२^k,

३८^l, सत्त्वामि बोधौ १२, ७,
२३ ४३, ५९, माथी, सत्त्वामि
काथी १५, ४, ४०, आथी,

सीदेत् अप ४३, ३, ११,
सीदेत् जेथीका १३५, १६०

सत्त्वामि १०८, २१^k

सत्त्वामि आपथी ५, २७, १,
माथी ५, १८, १xx, बोधौ,

सत्त्वामि आपथी ८, १०, ६,
१३, ३, २xx, बोधौ, सत्त्वामि
शाथी ४ ८, ३ काथी

सादयति काथी २, २, १५xx,
आपथी, सादयति बोधौ ५, ६

६, माथी ८, १०, २, माथी,
सादयति आथी ५, ६, ३०xx,

माथी, सत्त्वामि आथी १, १३,
१, काथी ४, ७, ६, १४, काथी,

आपथी ५, १२, २, १३, ८^l, १५,
६^l, ६२, १^l, १६, ३०, १^l^m,

सत्त्वामि आथी १६, २१, ६,
२३, १, २४, ५xx, बोधौ,

सादय > या द्विथी २१, १, २,
शुभा ७, ३०, शुभा, सादयत्

आथी २, ६, ४, काथी ९, ४, २८,
आपथी, सादयत् आपथी १२,
२१, १९

सत्त्वामि बोधौ १७, २१
७, ३६ १२, १९, ४ ६, सौमि,

सत्त्वामि बोधौ ८, १३ २,
१४ १६

सादयते आपथी १२, १४, ७,
सादयते आपथी १२, २६, ९,
बोधौ १५ १६ २ द्विथी ८, ४, ७

सत्त्वामि- न माथी ३, ७, १३, -न
अप ३, २, २९

सत्त्वामि- चा या ५, ३ⁿ

सत्त्वामि- पाव ४, १६७, -अम्
आथी ८, १३, ७, शाथी १३

१४, १, काथी १२, १, ४, ६,
६, २१, २४, ७, २८, आपथी,
-अम् आथी १२, ४, १०ⁿ,

बोधौ १४, २७ १८, बोधौ २४
११, शाथी ११ २, १०ⁿ, काथी,
-अम् आथी ४, ८, १५ ७

१, १xx, बोधौ, कय २, ३ⁿ
-तामि आथी ४, १, ८, १०,

५, २, १२, १५, ६, काथी ११,
१, ४, काथी, -अम् आपथी

२४, ४, ९, बोधौ, -अम्
काथी १३, १३, १, काथी २५,

११, १, आपथी १४, २३, १,
बोधौ, -अम् काथी २५ १४, ३१,

आपथी १२, ८, १३, १३ ३३
१४xx, बोधौ, काथी ३ १,

२३ⁿ, नाथ २४, १५, -अम्
काथी १२, २, १०, आपथी २३

१४, ८, द्विथी, -अम् आथी
५ १३, १२, काथी १, ६, ११xx,

आपथी, -अम् बुदे ७, ५१
सात्वत्- -अम् आथी ८, ११,

३०

सात्वत् (न का) द्विथी-
को माथी ११, २, ११

सात्वत्- क ह्युम् २, १०
४, ७, -अम् विद् ९ १ ४५

-अम् आथी ११, १५ ८, -अम्

a) = आनुषंगीविशेष विशेष । b) तु पागम । c) सात्वत्- इति पागम । d) कै १ इ ।

e) कर्त्तव्य च ३ । f) = अह- । g) शुभा ३, ५९, सौमि २, १९, पा ३ १, २४, ३, ६१, ७ ३, ७८, ८, ३, ६
पराश्रुत इ । h) सया सीदामि १, १, ८ च <> सादयामि (काठ ३९ ५ च) इति पाठे । i) पाठे कै १,
७२९ h इ । j) सया सीद (काठ ७, १३ च) <> सादयामि इति पाठे । k) पाठे कै १, १२२१ ० इ ।

l) पाठे इ ४५३ ० इ । m) विद् । भवार्थे मन् प्र । n) लज्जनीयम् इत् प्र ।

कौसु २२, १४, -के कौसु १८, ३४
 सत्र-काम-भस्व निम् १०, ५,
 २३, -मेन वाधौ १२, ४, २५
 सत्र-काम- २ निम् ९, ९, ३१
 सत्र गणपश- -शे काश्री २५,
 १३, २८
 सत्र गज- तयो निम् ९, ४:
 ३५, -तौ वीथौ २६ १६ ८
 सत्र-(प्ल>)णा- ष्णा तु ११,
 ४
 सत्र-ख- लक्ष मीसु १०, ६,
 ६०, -वात् मीसु १०, २, ४३
 सत्र-धर्म- -र्मा वाधौ ११, १, ६
 सत्रधर्मा(र्म अ)न्वय- -घस्व
 आधौ ७, १, २१.
 सत्र धर्मन्- -र्मा मीसु १०, २,
 ३९
 सत्र निवृत्त- -न्वात् वीथौ २९,
 १ १६
 सत्र-न्दाय- -य लाधौ १०, १४,
 २, निम् १०, ८ ११, -यत्
 धाधौ ७, १, १६, लाधौ २, २, ४
 सत्र प्रवाद- -दा निम् २, १० ९
 सत्र भूत्- -त् मीसु ८, २, २०,
 -ते द्विथौ १६, १, ४०, ५, ११,
 -तेन आपधौ २१, १५, २, २३,
 १, २, द्विथौ १६, ५ १५
 सत्र-नाह- -नात् माधौ २, २,
 ३, ०
 सत्र किञ्- -ङ्गम् काश्री १२, १,
 ५, मीसु ८, २, ३२
 सत्र गद्-रूप- -य निम् ८,
 १ १५, ९, ९ २१
 सत्र सद्वा(द्-अ)भिसपो-

-न्वात् मीसु १०, ६, ६०
 सत्र शब्द- -घसे आधिय १,
 २, २ १९^०
 सत्र-सद्- -सत् श्रुदे ८, १३३,
 -सधौ वा १२, ३०^०, -सन्नि
 श्रुदे ८, १३३.
 सत्र समित- -नेन आपधौ २२,
 २३, १, द्विथौ १७, ८, १५
 सत्र सद्सत्-सर्ववेदस-वाक्येष
 राजसूय-विश्वतित्-सर्ववृष्ट-
 -शेषु काश्री १२, ५, १३
 सत्रस्य(स्य-अ)र्द्धि- -र्द्धि द्वाधौ
 २, २, ४४, लाधौ २, ६, ४१,
 -र्द्धिस् काश्री १२, ४, १०
 सत्रा(त्र-अ)ङ्- -ङ्गम् वाधौ १३,
 ४, १०, २५, ११, २
 सत्रा(त्र-अ)न्व- -न्वात् द्वाधौ
 ७, ३ २०, लाधौ ३, ३, २९
 ✓सत्राय^० पावा ३, १, १४
 सत्रा(त्र अ)यण->सात्रायण-
 -य. आधिय १, २, १ १५,
 -यम् वीथु ३, १, २४
 सात्रायणि(क>)का-
 -का वीथौ २३, ५ १६, १०
 सत्रा(त्र-अ)ल- -लम् निम्
 ५, १३ १, २२, २६
 सत्रा(त्र-अ)हीन- -न^३ निम्
 ९, ९ ३९, ४४, -नयो माधौ
 २, २, ३, २४, -ना वाधौ ३ २,
 २, ४६, -नानाम् धाधौ ७, १५,
 १८, ११, १, आपधौ ११,
 १०, १३, -नेषु माधौ ६, १, १,
 ३, वाधौ २ १, १, २
 सत्रिन्- -त्रिण शोधौ १८,

२४, ३१, लाधौ ३२. १९,
 नूनयो ३, २, ५, ३४, ३५, वैधौ,
 -त्रिणाम् वीथौ १४, ४ ३३x, x,
 अग्रय ३, ९, १०, अग्र २३, ९, ३,
 वाध १९, ४८, विघ २२, ५०
 सत्रि धर्म- -र्मा आधौ १२,
 ८, १
 सत्रिय- -य वीथौ १०, २५
 १०, आधिय ३, ८, २ १४, वीथि
 १, १५ २४, -येयम् निम् ९,
 १. २४
 सत्रो(य>)षा- -या आपधौ
 १४, ७, २२, द्विथौ ९, ८, ४६
 सत्रो(त्र-उ)थान- -न्म् वाधौ
 १२, ४, २९, ह्रग १, ५३०
 सत्रो(त्र-उ)षवाह- -द्म् निम्
 ९ ७ १०, -दा निम् ९, ६
 ११
 सत्रो(त्र-उ)वकरण- -गामि निम्
 ५ १३ ३
 स(न्व>)ष्या- -ष्या वीथ १,
 २, ५६
 सस्वत्- -स्वन्त धाधौ ११,
 ३, ७
 सद्- पाग ५, ४, १००, सदे माधौ
 २, ३, ७, २^१.
 सद- वा ३, १, १४०
 सदन्- -र्नन्त आधौ ३, १४,
 १३^०, ४, ७, ४x, आपधौ
 २, १०, ६x, १६, १२, ११^०,
 वीथौ, द्विथौ १६, ५, ७^०, द्वाधौ
 ४, २, १२, ३, ६, लाधौ २, २,
 २१, ३, ६, तु ८, ४, अग्र ४८,
 ७५^०, निघ १, १२^०, वा १२,

a) बल । b) तु प्रयातं प्रथ । c) वैष १६ । d) पागे पृ २५१० । e) सदल
 = सदलसिद्धि-प्रथ । f) = शाम विरोध- । बल । g) = पाप पर्याय- इति वैयट प्रथ । h) = सहाय विरोध-
 (= तै ७, १, ४ प्रथ) । स्थाधिक बन् प्र । i) तु पृ १३१ मा । j) दल । k) मलो क्य । l) पागे
 वैष १ सुदने टि द । m) पागे वैष १ सुदगम् मा १७, ८० टि द । n) = उदक ।

४२^०, -फनात् काश्री ११, १३,
१६, वैश्री ४, २३, या ७, २४^०,
-फनात् काश्री २, २, १०^०,
आपथी ३, १९, ३^०, माथी ३,
१६, ३, ४, ६, ७, द्विथी २, ८,
१५, कौशु १३७, ११^०, या २,
२०, -फनात् आपथी ४, ५,
५^०, माथी ४, ८, २^०, द्विथी
६, २, ९^०, ऋषा ८, ४२, -फने
आथी १, ३, ३०, ३१^०, आथी,
आपथी ३, १८, ४^०, ५, ८,
६^०xx, वीथी ३, २८ ५^०,
माथी ३, १४, ३^०, माथी १, ५,
२, ३^०, ५ २, १५, ६^०,
बोध २, २, ३४^०, -नेषु द्विथी
११, ७, ५१^०

सदनी- नी वाथी १, ४, १,
२०^०
सद(न>)वा-सद्व्- सदे ऋषा
९, २४^०

सद्व्- द आथी ३, ९, ४^०, ४,
१०, १, ११, ३xx, वाथी,
काथी ७, ९, ६^०, आपथी १,
१०, ३^०, २, ११, ६^०, १०, २७,
१०^०, माथी २, १, ४, २१^०, २,
४, ३५^०, वैथी ५, ९ ५^०, १२,
१९, २०^०, द्विथी १, २, ५५^०,
८, २९^०, ७, ३, ५२^०, वैताथी
१०, ८^०, १५, ४^०, गोष् ४,
३, २३^०, शुभ १, ३४९, ९

आथ १२, १^०, -फद ९ द काथी
२३, ३, १, आपथी २२, १९, १,
द्विथी १७, ७, १०, -दस. आथी
५, ३, २२^०, आथी, काथु
१, २१, ७, १५, वापथु ७,
१, बौथु ४ १३, द्विथु २, ४६,
-दसा वैथीका २४, -दसि
आथी ६, १४, ८, आथी १, ६,
९^०xx, वाथी २, २, १^०xx,
आपथी २, ९, १३^०, १०, ३^०,
काठथी, वीथी १, १३ २९^०,
३१ ३३^०, -दसि निष ३,
२^०, -फदसे आपथी १२, २०,
८, वैथी १५, २३, १५, द्विथी
८, ५, ३६, -फदासि आपथी
१४, ३०, ५, वैथी २२, १७ १,
द्विथी १५, ७, २१, या ९, २९

सादत्त^०- साद्व् वाथी ४, ४,
३, लाथी २, ३, १८

सद साप्तीप्रधिष्णविषय-कस्त-
तीवरीप्रदण-परिहरण- ने काथी
१४, १, १३^०

सद आशीधीय हविर्धान- नम्
माथी २, २, ५, ३४

सद-कर्मन्- मे आपथी ११,
१०, १९

सद-कार्य- यांनि वाप १६, १

सदसत्त पति- > सादसत्त
(त्य>)या^०- नया साभ ४,
१७१, -नया ऋषा २, १, १८

फुसदस-पति- तमे आपथी ३,
२, १०^०, माथी २, ३, ७, २^०
सदस्य^०- फुसत्त आपथी १०,
३, १, वीथी २, २ ८, ४ १२,
द्विथी १०, १, १९, ४, ६०, -स्य
शाथी ५, १, ८^०, आथी १७,
१, १४^०, २, ११९xx, ११, १५,
१^०, वीथी, दाथी ४, ३, ६^०,
साथी २, ३, ६^०, -स्य
आपथी १०, १, १०xx, वीथी,
-स्यस्य आथी १२ ९ ५,
आपथी १२, २३, १३^०, वीथी
२, ३ १२xx, २५, १३
१८^०, वाथुथी, -नया वीथी
१७, १९ ३, वीथी, -स्य
काथी १०, २, १७, निव्,
-फुसवानाम् वाथी ९, ११, ३,
आपथी १२, २३, १३, वाथुथी,
-नया आपथी १३, ६, ६, वीथी
२१, २२ ३, द्विथी, -स्य
आपथी २२, १६, १४, वीथु ४, ९,
१४, वाप १, ४२, ७xx, -फुसत्त
वाथी १०, २, १८, आपथी १४,
२६, १, वीथी.

सादस्य^०- स्येन वीथी
२, ३ १९

सदस्य प्रथम^०- नोय माथी
२, ५, १५

सदस्य-सदस्य^०- नान्द
साथी ८, ११, १५

a) स्या सदस्य (ते १, ४, ४४, २ च) <> मासा ४, ४, ४, १० सुदना <> सदनाति इति पाठे ।
b) स्या ऋ १, १६४, ४७ । ते ३, १, ११, ४ प्रथं सुदनाति इति पाठे । c) माप । d) पाठे २९ १ सुदति
का २, ३, ३ टि इ । e) स्या सदने <> सदनी (पाठ ७, १२ तैसा १, १, १२ च) इति पाठे । f) स्या
स<>सा इति पाठे । g) वेप १ इ । h) स्या सा ४, १० प्रथं मासा ३, ३, ४, १ । पाठ २, ६ क १, १९
सुदने इति पाठे । i) स्या सा २, १२ सत्त इति पाठे । j) स्या सद (सा २, ६ मासा १, १, ४, १४ च) <>
सदति (का २, १, ८ प्रथं तैसा ३, ७, १, १० च) इति पाठे । k) सदनेहनिर्घो (ती १२, १, ३८) इत्यत्र द्वा १ ।
l) = धावा-वृषि- । m) मराथे मण् प्र । n) श्रेषु इति चोत् देववाहितयः । o) = ऋत् । p) पाठे २९ १ सुदना
ते २, ६, ८, १ टि इ । q) स्या वाथी ६, १२, १४ सगर इति पाठे । r) सत्य इति पाठे । s) स्या । t) स्या ।

सदस्या(स्य आ)यजन- नम्
 द्विथी १०,३,४२
 सद-सक्ति- सक्तियु काथी १३,
 ३,१९
 सदो-द्वार- नम् काथी ८, ६-
 २१, वैथी १४,१२ ७
 सदो द्वारं- ये आथी ५,११,४
 सदो(दस्-अ)न्तर () काथी १५,
 ५२२
 सदो विल- नम् द्विथी ७,७,
 ३०, -ले आपथी १२,२७,११,
 १३, काठथी १४३, माथी २,४,
 २,२५
 सदो(दस्-अ)भिमर्शन- नम्
 काथी २,८,१८.
 सदोभिमर्शना(न-आ)दि-
 दि काथी २,९,१
 सदो-मार्गतीय हविर्धान-
 नम् माथी २,२,५, ३४, ५,२,
 १६,९
 सदो विधीय- नम् निष् ७,
 ५:४१
 सदोविधीय-समन्त- -ते
 निष् ७,१० ३^०
 सदो हविर्धान- नवो माथी
 २,२, ६, १२, वैथी १४, १०,
 १३, १२ १, द्विथी ७,७,२३,
 -नाम्नाम् वैथी १६, २८-३,
 द्विथी ९,६, २४, -मानि अथी
 ६, ८, २, १२,४, १५, ६, ५,
 पाथी १७, ६, ३, काथी २४,
 ३, २६, आपथी, -नाम्नाम्
 वीथी १९, ७-२७, -ने
 काथी ८, ४, २४, आपथी

१४,३१,२, वीथी, -नेतु आपथी
 १४,८,७, द्विथी १०, ८, २९
 सदो हविर्धाना(न-आ)नीम-
 -भागि काथी २४,५,२६
 सदो-हविर्धाना(न-आ)नीम-
 होतृधिल्लव- -ण्णाम् काथी ६,
 १०,१४.
 सतप्रभ- -अ आथी ४,६,३, ७,५,
 थापमं २, ११, २२, अप ४८,
 ७५, कप २,३,१९, निष १
 १२, २,१७, ३, ४, वा १४,
 १३, श्रमा ८,२७, ४५, ५०,
 -अनी निष ३,३०^१
 सतु- पा ३,२,१५९
 सत,आ- -अ वीथी ७, १५ ३१,
 शुभा ६,२६, -अथ आपथी १४,
 २, १३, २७, ७, वीथी ७, १५
 २५, ५, वैथी, -आ: आपथी
 ११,२१, ६, १२,३,७, वीथी,
 -सुंआत् आपथी ७, ८, १^२,
 द्विथी ६,८, ६, माथी १,८, ६,
 २२, वैथी, -आत् आपथी
 १२,३, २, १९, ७, ८, द्विथी
 २३, १, २७, -आत् आत्
 आथी ५ ३,२२, -आनाम् शीथी
 ८, २, १३, -आम् विष ५७,
 १९, -आत् आथी ५, १, १९,
 -ने शीथी ५, १४, १९, द्विथी
 ८,४,७, -नेतु आथी ५ १७,
 ५, ११, ६, ३, आपथी १३, ५,
 १, १२, १, ५, वीथी
 सत ल- न पा १, २, ४०,
 -आत् पाया १ १,३२
 सत-सुसल- -ले बाध १०, ८,

वीथ २, ६, २४
 सत व(व >) ती- -वीथि
 माथी ६,१, ४, १७, २४, २८,
 वाथी २, १, ३, १६, २८
 सता(न-आ)हुति- ती माथी
 २,१४,३.
 साद- पा ३,१,१४०
 सादन- नम् आथि ३,५ ३-
 ११, वीथि १,३ १०, वाथ ५,
 २२, शुभा २,३९, -ना आथि ३
 ३,८,२ ३०, वीथि १,१५ ३८,
 कप्रा २ ४८, शुभा ४,८७, -ने
 आपथी १२,१९,५, वाथी ३
 ४९ ३, वैथी १९, ५:२५,
 आपथ २,१३,६, द्विथि २,३,६^०
 सादन- नम् आथी ५, ५, १२,^१
 काथी २,१४,१०, १२, ६,२५,
 १९, २, १६, वापथी, -नाम्
 आपथी १२, ३, ६, १३ ४,
 १०, ५, वीथी, -ने वीथी २०,
 ५ ७, ५, काथी १, ३, २, १७,
 -नेतु आपथी ११, २०, १३,
 वैथी १४, १८ ८
 सादन-काल- -ले आपथी ७,
 ९,४, १९, २३, १३, द्विथी २२,
 ५ २
 सादन प्रयत्- -ले आपथी
 १६, ३१, १, वैथी १८, २० ५८
 सादन-नन्द मीतु १०,५, ७५
 सादन-सूतदोहस- हसी काथी
 १६, ७, १४
 सादना(न-आ)दि- दि आपथी
 ११, १९, ४, १३, १५ १५, वैथी
 १६ १९ ७

a) = सदो-द्वार- । b) = साम-विधेय । c) = साम-द्वय- । d) स्वामन्ते इति पाठ १ नि
 शेष (तु यस्वर्गं दि, ८ टि [ता १९ १२,६] च) । e) दस । f) वैप १ द । g) = उदक- ।
 h) = सपाम- । i) = यावापुविषी । j) नाप (अनुदान-तर-) । k) वस । l) नाप (सक्-) । m) प्रादि-
 तिको दीर्घ (तु वैप १) । n) पाथे तु १५१४ f द ।

सादना(न-अ)भिमर्शन-प्रोक्षणा-
(ण-आ)दि- -दि माथी ३, १,
२४
संसादन्य^०- -न्यम् ऋषा ९,४६,
शुभा ३ १२९
सादयित्वा आथी २,३,१७,५, ५,
९, ६,१०, ११, शोथी
सादयिष्यद्- -ष्यद् वाथी १,१,१,
७६.
सादि- पाठ ४,१२५
सादित- -तम् वीथी २४, १२:
७, -कंताय हिपि २१:१७, वीपि
१,१,२७, -त्रे वीथी १५,१६:२
साद्य दाय २,१,१६
साय- -दधानाम् आथी ९,९,१७^०,
-सो माशि ६,६
साद्यमान,ना- -नम् आथी ४, ९,
४, वैथी, -नयो. शोथी ३,१४,
११, -ना माथी ४,१०, १, हिथी
६,१,५१, -नाम् वैथी ५, ७
८,११,१३, -ने शोथी ५,९,९,
१०,२५, हिथी ६,२,१६, वैथी
२३ १५, -स्ये शोथी ५,९,४
सोदत्- -दताम् अप ७०^३, ९, ४,
-द्व् अप ६९,८, ३, ऋषा ५,
१७^१, या १०,४४^१कं, -कं दत्
लाथी ७, १२, १३, साभ,
-दन्तम् आथी १२, ५, १५,
हिथी १३,६,२०
सोदितरी- -री आथी ४
६,५, माथी ४ ९,३, हिथी ६,
२,१६
सोदि- पाग ३, २, १७१, -दि
वीथी १७, १९:६, वाथी ३,

४, ४, ६^१, अथ १२,५(३)^१,
-कंदिम् काथी १७,३,१३, वीथी
१०, २६. ८, कौस् ७०,१
सेदिवस्- पा ३,२,१०८
सद्-सद- ✓सद् द
स^०-दक्षिण,णा^१- -नम् कौस् ६८,
२९, अप २२, ९, ४, -शा अप
५८,१,१३^१, ६३, ५, ५, -णा
कौस् ७३,१३, -णाम् अप ६२,
४,६, ६८,३,९, ६,२, -नै अप
५१,५,३, ७०^३,७,१
स^०-दक्षिणांस- -सम् वैथी १२,
९ ३
स^०-दण्ड- -ण्डः वीथी ६,१७ २१^१,
स^०-दधिशीरसर्पिष्-क- -के
वीष ४,६,५
सदन- प्रश् ✓सद् द
संसादम्^० आथी १२,९,७, वीथी ३,
२१ १४, वीताथी २४, १^०,
३६, २७, आपम १, १४, ७,
वीथ १,३,३५, अत्रा ३, ४, १,
या ४,१९^१कं, १२,३७, पाग १,
१,३७^०
सदंशु(ण>)प्या^०- -प्या अथा
२२,१
सदंशुप्या मणि- -मिष् वीष्
२८,७
स^० दर्पण- -नै अप १९^१,४,४
स^०-दर्म,र्मा- -मंशु अप्राय २, ५,
-मंशा वीथी ३, ३ ४, हिथी
१,२, १४, -मंशि वैथ ६६
८, -मंशु कौस् ८८, ६, -मं
वीथी १२, ७ ३, पाठ ५१,
१२, -मंशु अप ४४,२, ७.

सदमो(र्म-ठ)दक भाजन^०- ने
जैथीका १०९
सदमो(र्म-व)पवत्स- सेपु आशि
३,११,४ १५, वीथ २, ११,
१५, ३,१२,७, वीपि २,९,१४,
वीष २,८,६
स^०-दर्भ तिल- -लंशु वैथ ४,३ ८
स^०-दर्म-पिङ्गु(ल>)खा- -न्या
वाथी १,२,१,५
स^०-दर्ग-मूल- -लाद् वैथी ४, ११
१०, १४
स^०-दर्म यष- -यानि वैथ २,१ ६
स^०-दर्वी- -वीम् कौस् १३८ १९
स^०-दश^१- -ना काथी १४, २७,
६,२८,४, -सेन मैम १३
स^०-दश^२- -सेन वैथी ११,२ १४
सिदश- -या तु २७,१^१
स^०-दशापवित्र- -नम् आथी १२,
२,१०, वैथी १५,३ ४, हिथी
८,१, ३६
सदस्, सदस्य- ✓सद् द
सदा^० आथी २,१,५, ५,६^१, शोथी,
या ५ ३, ६, पाग १, १, १७
सदा(दा अ)मिक्- -क शं
१९९
सदा(दा अ)नुमन्- -ना वैथ २,
९-३९
सदा तोनु(व>)वा^०- -वे वा ६,
३०
सदा-शु(ण>)प्या- -प्यामि
कौथ ३, १,२^०
सदा शु(ण>)प्यी- -प्यीमि शी
३,१,३^०
सदा शुण^०- -न प्रम २,५,४५

a) वैप १ द । b) = शुभ-वादि- । c) = अण- । d) उप = २दक्षिणा- । e) पागे वैप २,
३१ अथम् तेषा ३, ७,१३,१ टि द । f) दृ पागम । g) = श्लेषमि-विशेष- । h) वग > पव (द
जैथी १०९) । i) उप इल । j) उप < दसम्- । k) उप < दना- । l) सदन इति पाग (एथी) ।
m) वष । n) = सदान्वा- । o) पल्लव पथि ।

सदा-मत्त^०- वा, पाप २, ४, ६३.
 सदा-युक्त- -क्ताः अप २०, २, ४.
 सदा-वृत्त^०- -व्यः आपथी १७,
 ७, ८.
 सदा-विव- -वम् अप ४०, ६, १६.
 सदा-शुचि- -चिः आपिप २, ७,
 १० : ११.
 सदा-होम- -मे अप २५, २, ५.
 सदा(दा-उ)पदिष्ट-व्रण्य- -व्याणाम्
 अप २३, १४, १.
 सदाण्वी^०- वा, पाप ४, २, ८२.
 सिदातिथ्ये^० अपाय ३, ११.
 स^०-दान^०- -नाः अप २, ४, १२.
 सदाण्वी^०- -न्वा वापथी १, ४,
 ४, ६०; -न्वाः अप ३, ४, १;
 -न्वे अप ४८, ११५; निप
 ४, ३; वा ६, २००.
 स^०-दा(मव>)नी- -न्नी^० हिरो
 ६, ५, १५१.
 स^०-दार- -रः वीप ३, ५, २; कप २,
 १०, १३; आपथ २, २२, ८;
 हिप २, ५, १३८.
 स^०-दास-भार्य^०- -वैः मार २, ५ :
 १११.
 स^०-दिश- -दिशम् वीथी १०, ९ :
 ३; हिथी ४, २, ५५.
 स^०-दीक्षणीय- -यम् आपथी २१,
 ३, ७.
 स^०-दीक्षो(वा-उ)पसत्क- -वम्
 आपथी १२, ५, ११.
 स^०-दीप- -यम् वीप ३, १२, १२.
 स^०-दीपक- -वम् विप ६७, ४६.
 स^०-दूर्वा- -वर्णु आप २, ९, ३.
 स^०-दृश^०- पावा ६, ३, ८९; -क्षम्

शेष ११६ : ५३.
 स^०-दृढतर- -रश्च निम् ७, १३ :
 १४.
 स^०-दृष्ट^०- वा ६, ३, ८९; पाप ५, ४,
 १०७; पावा ३, २, ६०; -दृक्
 अप ६, ३२; -दृक् आपथी
 १६, २३, ७; वीथी.
 सट्क-नेयस्- -यसोः वीप ५, ३९.
 सट्क-वत्- -वन्ति अप १ : २३.
 स^०-दृश^०- वा ६, ३, ८९; पाप ५,
 १, १२४^६; ६, २, १६०; पावा
 ३, २, ६०; -दाः कप ७, २३;
 वृदे २, ९७; -क्षम् छम् ३, ३ :
 ९; ४ : ८५५; विम् २, ४ : २८;
 वीप; -आः आपथी ७, १५, ५१;
 हिथी; -शात् शेष ६९; -शाणाम्
 माप १, ९, ८१^१; वाप ११, ७१^१;
 अप २, २, २१; -ते वीप ४,
 १, १६; -दोन आपथी ६, १८,
 २; हिथी ६, ६, १७; -दौः
 अप १७, २३; -दौ लाथी ६,
 ८, ८.
 सट्की- -शी वीप ३, ३,
 १६; ३, २३; -क्षम् अप ३, १,
 ५; वाप १, ३३; ८, १; वीप ४,
 १; वृदे ७, १; -दयम् छम् ३,
 ७ : २.
 सट्क^०- -गानाम् शीथी ४,
 २१, ३१^१.
 सट्कव- वा ५, १, १२४; -दयम्
 छम् ३, ६ : ७, ८ : ३; -दयत्
 हिथी ३, ८, १५; -दये पा ६,
 २, ११; पावा ५, २, ३९; -दयेन
 अप ६, १, १७.

सादवा(रय-अ)परमाव-
 -वम् वा १, ३.
 सदश-नीति^०- -विपु लाथी ७, ५,
 २१.
 सदशा-महण- -वम् पावा ६, २,
 ११.
 सदश-महण^०- -वे पावा २, १,
 ३१.
 सट्क-त्रय-मध्य- -रा- -राः माति
 ११२.
 सट्क-देश-> शीप- -वे छम्
 ३, ५ : ८.
 सट्क-प्रतिकल्प- -पथोः पा ६, २,
 ११.
 सट्क-व्यक्ष(न>)वा^०- -नाः निम्
 ६, १३ : १.
 सट्क-न्यायात- -तः निम् ७, १३ :
 १९.
 सट्क(श-आ)वि- -विपु अप ९,
 २६.
 सट्क(श-आ)न^०- -वैः विप ४३,
 ३७.
 सदृश- (>सादशीप- वा.) पा
 ४, ३, ८०.
 स^०-देव^०- -व्यः वीथी २४, २६१;
 -वम् आपथी १, ५, ५; ७, १३,
 १२; वीथी ४, ५ : २१; माथी;
 -वत् अप २, ५, १०.
 सदेव-व्य- -व्याप वीथी १४, १९ :
 २९; हिथी २१, १, १०.
 स^०-देव-मनुष्य^०- -व्यस्य अप ३,
 ९, ३.
 स^०-देवराज- -वत् अप २, ५,
 १०१.

a) = आपि-विशेष-। b) वीप १ द.। c) वृ ८२८ वृ द। d) पाठः ? दुरोन्मत्तं मा^० इति
 शेषः (दु. सप. काठ ३४, १४)। e) = वत्-। f) = आपिप-विशेष-। g) सप. सदाण्वी<>सदाणी
 (तीका ४, २३, १ च) इति पाठे। h) सप. इव.। i) = रत्-। j) = सट्क-विशेष-। k) वृ पापम्.।
 l) पाठे. वृ २५०१। द.। m) आपिपः सप.। n) वत्.।

सादना(म-अ)मिमर्शन-प्रोक्षणा
(ए-आ)दि- -दि माथी ३, १,
२४
सद्वन्- न्यम् स्या ९, ४६,
शुभा ३ १२९
सादगिवा आथी २, ३, १७, ५ ५,
९, ६, १०, ११, माथी
सादविष्यत्- न्यन् माथी १, १, १,
७६
सादि- पाठ ४, १२५
सादिक- न्यम् वीथी २४ १२
७, -सताय हिपि २१:१७, वीपि
१, १, २७, -वे वीथी १५, १६ २
साद्य दाय २ १, १६
साय- दयानाम् आथी ९, १, १४^०,
-चौ माधि ६, ६
साद्यमान, ना- न्यम् माथी ४, ९,
४, वीथी, -नयो आथी ३, १४,
११, -ना माथी ४, १०, १, हिथी
६, १, ५१, -नाम् वीथी ५ ७
८, ११, १३, -ने माथी ५, ९, ९,
१०, २५, हिथी ६ २, १६, वीथी
२३ १५, -वेपु माथी ५, ९, ४
सीद्व- द्यम् अप ७०^०, ९, ४,
-द्वन् अप ६९, ८, ३, ऋभा ५
१७^०, या १०, ४४^०, -सिन्दव
लाथी ७, १२, १३, साध,
-द्वन्तम् आपथी १२, ५, १५,
हिथी १३, ६, २०
सिदी-दी- -नी आपथी ४
६, ५, माथी ४, ९, ३, हिथी ६,
२, १६
सिदि- पाग ३, २, १७१, -दि
वीथी १७, १९ ६, माथी १

४, ४, ६^०, अय १२, ५(३)^०,
-सिन्कथी १७, ३, १३, वीथी
१०, २६ ८, कौसू ७०, १
सेदिवस्- पा ३, २, १०८
सद्-सद- ✓सद् द्र
सदक्षिण, पा^०- न्यम् कौसू ६८,
२९, अप २२, ९, ४, -णा अप
५८, १, १३^०, ६३, ५, ५ -णा
कौसू ७३, १३, -णाम् अप ६२,
४, ६, ६८, ३, ९, ६, २, -जै अप
५१, ५, ३, ७०^०, ७, १
सदक्षिणास- सन् वीथी १२,
९ ३
सददण्ड- णट वीथी ६, १७ २१^०,
सदक्षिणरसर्पिष्-क- -के
वीथ ४, ६, ५
सदन- ऋद् ✓सद् द्र
सिदम् आथी १२, ९, ७, वीथी ३,
२२ १४, वैताथी २४, १^०,
३६, २७, आपम १, १४, ७,
वीथ १ ३, ३५, अपा ३ ४, १,
या ४, १९^०, १२, २७, पाप ३,
१ ३७^०
सदपु(ण>)प्या^०- न्या अवा
२२, १
सदपुप्या मनि- निम् वीम्
२८, ७
सदपुण- जै अप १९^०, ४, ४
सददर्भ मी- मन् अपाय २, ५,
-भ्यां वीथी ३ ३ ४, हिथी
१, २, १४, -भांनि वेपु ६६
८, -भांन् कौसू ८८, ६, -सै
वीथी १२, ७ ३, काय ५१,
१२ -मैपु अप ४४, २, ७.

सदभौ(सि-उ)दक मान^०- ने
वीथीका १०२
सदभौ(सि-उ)पकलस- सेपु आधि
३ ११, ४ १५ वीथ २ ११
१५, ३, १२, ७, वीपि २ १ १५,
वीथ २ ८, ६
सददर्भ तिल^०- लेपु वेपु ४ ३ ६
सददर्भ पिञ्जु(रु>)ला- न्या
माथी १, २, १, ५
सददर्भ-मूल- न्यन् वीथी ४ ११
१०, १४
सददर्भ-यव^०- न्यनि वेपु २ १ ६
सददर्भ- नॉम् कौसू १३८ १२
सददर्श^०- न माथी १४ २५,
६, २८, ४, -सेन मैअ १३
सददर्श^०- सेन वीथी ११ २ १४
सिदसदश- न्य कु २७, १^०
सददर्शापवित्र- ऋ आपथी १२
२, १०, वीथी १५ ३ ४, हिथी
८, १, २६
सदस्- सदस्य- ✓सद् द्र
सदा^० आथी २, १, ५, ५ ६^०, वीथी
पा ५ ३, ६, पाग १ १ ३७
सदा(दा अ)मिक्- -क अप
१९९
सदा(दा अ)मुमह^०- हा वेपु २,
९ ३९
सदा नेनु(व>)प्या^०- -वे या ६
३०
सदा पु(ण>)प्या- न्यामि
वीथ ३, १, २^०
सदा पु(व>)प्यी- न्यमि वीथी
३, १, ३^०
सदा पुण^०- न न्य २ ५ ४५

a) मैप १ द्र । b) = वृष-वाहित- । c) = वस- । d) उप = सदक्षिण- । e) पागे २० २,
३२२ अपम मैमा ३ ७, १३, १ टि द । f) वृ पागम । g) = मोपवि-विसोप । h) वण > पण (इ
जैथी १० ९) । i) उप दण । j) उप < दसन्- । k) उप < दसा- । l) सत्त इति प्या (पुणे) ।
m) मस । n) = सदान्वा । o) परस्पर पाणे ।

स-द्रव- -वम् १ प्र ३, १०, ८.
 सद्भि- पाठो २, १, २२४.
 सद्भि- ✓सद् ४.
 सद्भि- -तुः अत्रा ३, ४, ११.
 स-द्वादश- -गम् वेज्यो ४०.
 स-द्वितीय- -यः द्विथी १६, ५, २२;
 ३६; -ये मीत् ३, ३, ४१.
 स-द्विप(दा)द्- -दः आथी ७, ३,
 १९.
 सध- > -ध-माद्- पा ६, ३, १६;
 -नमाद्: काथी १५, ५, ६;
 आपथी १८, १३, २१; बीथी
 १२, ९: ८; द्विथी १३, ५, २१;
 शुभ १, ५९९; -माद्म् द्विथी
 १२, ६, ६.
 सध-माद्- -दम् आपथी ९, ८,
 ६; बीथी: -वे आथी ८, १, १६;
 बीथी १३, २९: १८; २०;
 वेताथी ४२, ९; -देषु आथी ४,
 ७, ४; शीथी ५, ३०, ८.
 सध-मिन् (> सधमिन्(क>)
 का की- पा.) पाप ४, २, ११६.
 सध-स्तुवि- -ति: बीथी १८, ६:
 १०१.
 सध-स्थ- -पा ६, ३, ९६; -०स्थ
 माथी २, ५, ५, २१; द्विथी ९,
 ६, २७; -स्थम् आपथी २, ८, ६;
 बीथी: -स्था आपथी १९, २७,
 १८; बीथी १३, ४२: ५; माथी
 ५, २, ५, १३; द्विथी २२, ६, २६,
 ४४ ५, १७; -०स्था: माथी २,
 ५, ५, २१; वेताथी २२, २३^०;

२९, २२^०; कौत्: -स्थाद् काथी
 १६, २, १०; आपथी ५, ९, ८;
 १३, १, १११^१; बीथी १०, २:
 ११; माथी १, ५, २, १०^१;
 ८, ३, ३^६; बीथी: -स्थे शीथी ७,
 १०, ११; आपथी ६, १, ३; १६,
 ७, ४; बीथी.
 सध-स्थान- -ने या ३, १५^०.
 स-धनुस्- -तुः आपथी १८, १७,
 ६; द्विथी १३, ६, ७.
 सधनुस्- -क्तः बीथी २२, १:
 ७; अथ ६१, १, १३.
 स-धर्म- -पाप १५७.
 सधर्म- -व्य- -स्वम् मीत् १२, २, २३.
 स-धर्मिन्- -पाप ५, १, १२४^०; पाप ५
 १५७; -मैथी तुम् २, ९: २६;
 -मा मीत् २, १, १०; ३, ७,
 ५२^१; -मैथि क्षुम् २, १४:
 १७.
 साधर्म्य- -पा ५, १, १२४,
 -वैम् शीथी १३, १४, ५.
 स-धातु- -तु श्राम १२, १९.
 सधधि- -पाठ २, ११३; -वि: माथी
 २, १३, ४; ३, १३, १२; बीथी
 १०, १८: ५; माथी.
 स-धूप- -वम् बीत् ३, १२, १२.
 स-धूम- -यः अथ २१, ७, ५; -गम्
 वैत् ४, ५: १९.
 रसधि- -भि: पा ६, १, १५.
 सधधि(शु-ध)च्- -यक् आपथी
 १२, १५, ६; द्विथी ८, ४, २१.
 सधधि(शि-ध)च्- -पा ६, ३, १५;

-धय् शीथि ३२९.
 सधधीची- -धी: कौत् ३३,
 ८; अथ १, २६, ६; या १४, ३;
 अत्रा ३, ४, १.
 सधधीचीन- -नार् अत्रा ३, ३०.
 रसधि- -भि: श्राम २, १०, ११४.
 सधधंस- -सः श्राम २, ८, ८.
 ✓सन् पाथा. श्या. पट. संभली;
 तुदा. श्राम. दाने, सक्त् कृदे
 ५, ८१^१; सन् > ना शीथी ४,
 १५, ३; कौत् ५, ४, १; साम २,
 ३९७; श्राम ७, ३०; ५५; अस्-
 नत् आथी ३, २, १०^१; अस्-
 नाम् श्राम ८, ४७^१; सनेम्^१
 आपथी ५, ८, ४; बीथी २, १५:
 १९; द्विथी ६, ५, ९; सन्नेयम्
 आथी १, ११, १; शीथी १, १५,
 १२; आपथी ४, ८, ३; १६, २१,
 २; बीथी; सन्नेम आथी ८, ३,
 १; शीथी १८, १५, ६; मात् १,
 ५: १^०; वात् १, २३; द्विथ १,
 २, १८; या ५, १५.
 सनेमि^१ आपथि १, १, १: ५१;
 ५, २: १; बीत् १, ३, ३३.
 सेत् आपथी १८, १७, ११^१.
 सन्नेमि आथी २, १७, १५; मीत्
 ५, ३; मात् १, १२, ९; सन्नेमि^१
 माथी १, ५, २, १; वाथी
 १, ४, १, १६; सन्नेम: माथी २,
 १, २, ७^१, सन्नेमि पाप ३, ९,
 ५; अथ १८^१, १, ७; सन्नेमि^१
 मात् १, ११, ६; वात् १४, २१^१.

a) = ४७. b) वैप १६. c) व्यप. d) साध^० इति [पञ्च] पाठि, साधु^० इति [पञ्च] भाष्यदा.
 पाठा. e) = सपा. १४ (या १८, ५९ प्र. मात् ९, ५, १, ४६ च) <> १४ (वात् ४०, १३ प्र.) इति पाठे ।
 f) १४ इति पाठे १ यनि. शोचः । g) पाठे. वैप १, २५७ १ ३ ६. h) सधु^० इति B.N. प्र. । i) वत् । j) = रस- ।
 k) तु. पापम. l) स्वधर्मः इति जीह. प्र. । m) = रसधि- (तु. वैप १) । n) पाठे. वैप २, २४. सनेम्
 पैमा १, २, १, १५ टि. द. o) सपा. सनेम (की ५, २९, १ च) <> सनेमि इति पाठे. p) पाठे. वृ २४७८ f
 द. q) पाठे. वैप १ सन्नेम: वै ३, ५, ६, १ टि. द. । r) सुधु^० इति पाठो यनि. शोचः (तु. मात्.) ।

१स^०देश- वा अण ७१, ८, २
 २स^०देश- पागम १५६
 स^०देश- वम् वीथ ३, १२, १०
 स^०देशत, ता- तस्य वीथी २६, ६
 १०, वीथ ३, ८, ३१, -तामि
 वीथ १, १७, ३, पाग १, २५, ५,
 -ताम्य. वीथ ३, ८, १०, -ताय
 वीथ ३, ८, १, १०, -ताम्य. वीथ
 ३, ८, १०
 सदो वार- प्रम् √सद् व
 स^०दोष- वा अण ६८, १, ५२
 सञ्चन्- प्रम् √सद् व
 सञ्चन्तजातीय वाथी ३, ३, ४, ४७
 सद्यस्()^० नञ्वाथी ५, १६, १, ७, ४,
 ८, ९, ५, १६, १०, १, २, शाथी,
 पा ५ ३, २२, पाग १, १, २७
 सद्य-कृतो(त त)त^०- तम् आपण
 १०, १०, वीथ २, ५, ११
 सद्य-क्री^०->साय क^०-क लाथी
 ८, ३, १, -का लाथी ८ ३, ३,
 -क्रेण लाथी ८, ३, १, -क्रेण
 लाथी १, ४, १, लाथी १, ३, २१, ६,
 वीथी ७०, ६
 सद्य पाठ-क अण ६८ २, ५९
 सद्य पीठिय-सर्वपतैल- वम् भाण
 २, १४, २७
 सद्य प्रवा(व>)दा^०- वा निम्
 ६९ १
 सद्य चिदि- तिम् वीथी १७,
 २४ १, ३, २५ १, ४, २६ २, ४
 सद्य-वीथ- वम् आणित् ३, ७, ४,
 ४, वीथ २, ३, ८, ३, ६, २, वीथ

५, ८ १५, ७, ५ ३, ५, वाघ,
 -चे वाघ २३७
 सद्य शौचा(व-आ)दिक- वम्
 अण २३, ९, २
 सद्यस-का(र्ये>)वा^०- वाम् वीथी
 १८, २० १३
 सद्यस-काल, ला^०- पाग ८, ३,
 ४८, -वम् वीथी २४, १६
 १२, १४, १७ : २, भाथी
 ६, १५, १६, आणित् २, ७, ४,
 १६, -एया माथी १, ५, ६, २४,
 -का कृत ३, ७, ९, वीथ ५ ४,
 २२, -का आणित् ८, ५, ३१,
 भाथी ८, २२, १२, भाथी १,
 ५, ५ ४, वीथी ८, १० १,
 हिथी २२, २, २, -तामि वीथी
 २४, १६, ८ -सायाम् वाणथी
 १, १४, १८, हिथी १, ८, १९,
 -ले वीथी १९, २ २९, २४
 १६ ९
 सद्यस क्री^०- पाग ८, ३, ४८,
 -किपा आथी ९, ५, १२, वीथी
 १८, २० १, ११, २२, लाथी
 ८, ३, १३, -कियाम् वीथी
 २३, १८ * २७, ४, -किये
 वीथी १८, २१, २, -क्री
 वीथी १८, २२ ८, वीथ ३, १५,
 ६, वीथ ३, १४, २
 सायसक^०- पाग ८, ३, ४८,
 -कम् वीथी १४, ४०, १,
 -का काथी २२, २, ९, आणित्
 २२, २, ६, हिथी १७ १, २४,

-स्कम्प आणित् २४, ४, १,
 वीथी १८, १ ५, हिथी ११, १, ३,
 -स्क्रेण आथी ९, ७, १३ निम् ६
 १. १, -स्क्रे निम् ६, १ ११
 सायसक धर्म- मां कथी
 २२, ३, २४, २६, निम् ६ १ ११
 सायसक-तामन्- म निम्
 ७, १ १०
 सा(<स>यसक्री- स्त्री
 आणित् २, २१, १, १
 सद्यस ता- वाम् लाथी ८, ४, ७,
 -तापि वीथी १८, २० २४
 सद्यस-व- वम् काथी ४ ३, १०
 सद्य सिद्धि-क- रा अण ३६,
 २, २
 सद्यो-जात- वम् अण २०, ६, १
 वीथ २ ५, २०, -ताय अण २०,
 ६, १
 सद्यो(वम्-क)धियम्य- वम्
 आणित् ३, ११, १, १२
 सद्यो निगत^०- तस्य भाणित् १२
 १०
 सद्यो भाव- वम् वीथ ८ २, २४
 सद्यो-वृत्^०- वा वीथी २० २५ १
 सद्यो-वर्ष^०- वम् अण ६५, १, ६,
 १, २ ८, -वस्य अण ६१ १, १८
 सद्यो-वृत्ति-वृत्त- वम् अण ६५,
 १, १
 स^०धुत्ति- तिम् आथी २, १०,
 १४
 सद्योज^०->साद्योज- वा) पाग ७
 २ ७५

a) = वृत्त- । b) = ३त । c) वीथ १ द. । d) तु पागम । e) विप (वास्य) ।
 तस > कृत । f) रसाधिक अण् प्र (वीथ वाका ८, ३, ४८ भाव > वृत्तमेव प्र इति) । g) विप इति
 पाठ ? यदि शोध । h) वत । i) विप (शाखा) । j) तस वा वत वा । k) तथा सद्यस्य <>
 सायसक्रे इति पाठे । l) विप (साय प्रविष्ट) धर्म) । 'निर्गन्त' इति पाठ ? यदि शोध (इ
 वृत्तं
 टि, मूले च) । m) वप = २वर्ष- । n) तथा टीका २, ४, ६, ४ सद्यसि इति पाठे । o) सद्यो-ज-
 इति भाष ।

६,४,६; ताभौ २,१२,७; वीथि;
 ऽणाम १,१,१७,४,५७.

रसन- > सना(न-अ)इ- नाव
 माभौ २,५,५,२०.

सना(न-अ)मना(न-अ)इ-
 नाव माभौ २,५,५,२०^{१०}.

सनक- १सन- द्र.

सं-नदशत्रु,घा- -फ्रश्चि आदि २,
 ६,३ : २,४; ७; ९; वीथ २,५,
 १६-१९; -गाम् संघ १२७;
 -त्रे द्वि १७ : ४; -त्रेषु अप
 ५२,१२,२.

सं-नख- पाग ७,१,११०^{१०}; -रम्
 माभौ १,१,१,३४; वैथौ ३,४ :
 ७; द्विथौ १,२,३५.

सानरागम- पा ७,१,११०.

सनग- > संताग- -याः वीथौ
 १०,३५ : १७; १४,२९ : १८.

सनङ्गु- > सङ्गय- पावा ५,१,२.

सनत्- १सन- द्र.

सनत्वान- -नाय आदि १,२,२ :
 २०.

समन्द- (>न्दी- पा.) पाग ७,
 १,४१.

सनन्दन- -नः अप ४३,३,२; -नम्
 अप ४३,३,८; रण ११६ : ३१.

सं-नमस्कार- -नम् वीथ ३,१२,१२

सनय- प्रय. १सन- द्र.

सना वाभौ १,२,७,३.

सना प्रय. १सन- द्र.

सं-नाथ- -वरय वीथि २०८; यासि
 २,८०.

सनाद्यष्टिदैवम् वाभौ ३,६,३२
 सं-नामि- पा ६,३,८५; -मयः

आप २०, १८; माण २,१० :
 १७; वैण ५, ६ : १०; द्वि २,
 १, १२; निप २, ५^{१६}; वा ४,
 २१; -मिः वैण ५, ५ : ६^१.

सं-नामग्रा(इ>)हा- -हाः दाभौ १
 ४,१४; ताभौ १,४,१०; -हाय
 दाभौ १,३,२८.

सं-नामन्- पा ६,३,८५; -म,मादि
 श्रुवा १६,७; -मावी श्रु १,११.

सनाम्नी- -म्यः पि २,१५; -म्यौ
 वनित् ३ : १८.

सं-नासिपय- -न्याव् मादि २,१३.

सनि- √सन् द्र.

सं-निक्षेपो(प-उ)पनिधि-प्रमा-
 गत- -उम् संघ ३००.

सनित- सवित्- √सन् द्र.

सं-नि(ग्र>)स्ता- -त्रे वैथौ १३,७ :
 १०.

सं-निर्वाह- -हम् यथ १,८,१३.

सं-निव्याघ- -थैः वाभौ १६,१८,
 १४.

सं-निपादीक- -कः ड १८,५.

सं-निष्का(स>)सा- -सायाम्
 द्विथौ १,६,४.

सनिष्यत्- √सन् द्र.

सनिस्रस- प्रय. √सन् द्र.

सं-नीड^०,ळ- -डाः वाभौ १५,२,
 ९; १८,२१,११; वाभौ १३,९,
 २४; पाण १३,४.

सनीयत्- सनी-हार- प्रय. सन् द्र.

सनुकम् पाग १,४,५७.

संसुतत्(ः) निप ३, २५; वा ६,७;
 ऋषा १,१०३; श्रुपा; पाग १,
 ४,५७.

सनुत्- पा ७, ४, ११४; ६, ३,
 ८४; -त्थः आभौ ४, ६, ३;
 शांभौ ५, ९, १०; आपभौ.

सं-नूपुर- -न्य निव् ७,११ : १३.
 सं-सनेमि- -मि षण ४८,७०; निप
 ३, २७; वा १२, ४४^{१६}; ऋषा
 ८,५०; १६,७३.

रस-नेमि- -मि षण ९, ११.

सं√तत्, संस्...तत्तुः वाभौ २२,
 ६,१०; वैताभौ ३०,१७; ताभौ
 ८,८,१२.

सं-नष्ट- -ष्टम् वाभौ १७,१,१२.

सं√तत्, सम्...ततनः वीथ २, ५,
 ५८^१.

संतनोति आपभौ १,६,४^१; १४,
 ३४, १; ४^१; वीथौ; संतनोपि
 वीथ २, ८, ४^१; संतनोमि
 आभौ २, ५, १४^१; काभौ
 २५, १०, २५^१; आपभौ
 संसम्...तनोत् आपभौ १४;
 १६,१; द्विथौ १५,५,१; वैताभौ
 ४,३; संतनुष्य श्रु २, १३,
 ५; संसुतु आपभौ १६,३२,
 ३^१; वीथौ १, ३५ : १४;
 माभौ; वैथौ १८, २१ : १^१;
 संसमतन्व आपभौ २१,११,
 १; १०; द्विथौ १६, ४, ३२^१;
 संतनुष्य आपभौ ३, १०,

a) वि. (अभि). सन- [<नेप. मण- <√सन्]। b) सपा. तै ३,३,८,२ समसनाव् इति पाभे.।
 c) = यत्-। d) व्यप.। e) तु पागम.। f) वैण १ द्र.। g) = वर्ग-विकार- [उ. पाग.।] व्यु. ?।
 h) सलन्द इति पाडा.। i) = रस-। j) = क्षति-। k) अङ्गुलि-नाम-। l) उप. इति. > कस.।
 उपनिधि- = न्यास-विशेष- (दु. वास्य २,२५)। m) उप. = परिवह- (प्रणालिका-).। n) उप. = वपाक-।
 नि/व्यप- + कर्मणि घञ् प्र.। o) उप. अर्थः ?। p) काभौ. वा. पाठः। q) पाभे. वैण १ संसपामि तै १,५,१०,
 २ द्वि. द्र.। r) पाभे. वैण १ संस्...तनोत् कठ ३४,१९ द्वि. द्र.। s) पाभे. वैण १ संसुतु वठ ३९,८^१ द्वि. द्र.।

पुंससन्तो वीथी १८, ३१ १४,
१५
ससान शीथी १६, ११, ५, ८,
११, २०, २३, २६, २९
पुंसिषासति शीथी ५, १६, २,
७, ४, ४, शीथी
सति- पा ६, ४, ४५
सन्-> सनीयस्- -यान् वीथी
६, १० १८
सन्- -नाय या ६, २९.
सन्- पाठ ७, १४०, -नये या
३, ५१, -पुंनि शीथी १, ११,
१, शीथी २, १५, १२, आपथी,
-निम्न वीथी १५, ६ ४१,
-निम्न शीथी ३, ५, ९, शीथी १,
१५, १०१, १६, ११, ५, ८,
११ २०, १३, २६, २९, काथी
आपथ २२, १३, माथ २,
२६ ५, -नीनाम् माथी २
१, ३, १३१^b, -पुंन्या
आथी ७, ५, ६, शीथी ५ ८, ३,
आपथी १०, १८, ५^b, वीथी
६, ७ २२^b x x, माथी १०,
११, १४^b, वीथी १२, १४
१^b, दिथी १०, ३, १^b, द्राथी,
वैताथी १३, २३, आपथ २, ६,
२, -पुंन्यै आपथी १६, २९,
२, वीथी १८ २० ३, दिथी
११, ८, ४
सन्-मा(त्)> वी- -व्यी माथी
५, १, ५, ३३, १०, १३
सन्-वनि-> -व्य- -व्ये
मीथ १०, २, १६

स(नि>)नी-हार- -रान्
आपथी १०, १८, ५, वीथी ६,
७ २०, २१, १०० ७, भाथी
१०, १२, १, वीथी १२, १४ १,
दिथी १०, ३, १
सनीहार-अशासन- -नम्
दिथी १६ १, ४
सनि- -त्, -त्तम् या ३, ११
पुंसनि- -त्त श्रया १, १०१,
१६ ५३, -त्ता शीथी २ ११,
१, शीथी १, १५, १२, वीथी
३, ३० ४, ८, वाथी १, ३, ७,
१६, -त्त या ३ ६
पुंसनिवत्- -व्यन्तम् माथी १,
२, १ १^d, वाथी १, ३, ४, ५,^f
वैताथी २ १३
सति- पा ६, ४, ४५
पुंसन्व- -न्वन् शीथी १, १५,
१७, आपथी
पुंससनिवत्- -वात्सम् माथी १,
३, ४, २, वाथी १, ३, ५, १६, पा
७ ३, ६९
पुंससन्व- -नीम् माथी १, ८,
७ शीथी १ १३, ४
ससन्व- -वात्सम् वैताथी ७, २
पुंससवत्- -वात्स आपथी १२,
१४, १३, दिथी ८, ४, १४,
-वान् वीथी १००, ३०८
साठ,ठा- -त्तम् आपथी २२ ५,
१३^b, -त्ताम् माथी ५, १, ५, ३५
साति- पा ६, ४, ४५, -पुंन्ये वाथी
४ २, ३२^f, वीथी, या ७ २५,
श्रया ८, १२, -पुंता आपथी

१७, ८, ७, १९, २३ १, माथी
५ २, ३, ९, ११, वीथी १९, ५
५०, दिथी २२ ४, १७
सातसि- पाठ ७, १०७, -पुंनि
आथी १, ६, १, ६, ४, १०,
शीथी १, ८, १२ x x, वीथी
पुंसिषासन्- -रान् आपथी १७
२१, ७
ईसन-> सन् व- -क अप धरे
२, १, -कम् अप धरे, ३, १२,
शय ११६ ३०
सन्का(क-था)दि-मतुष्य-
-व्यान् अप धरे, ३, १
सन्- पाग १, ३, ७^f
सन्व कुमार- -न्व माथि
२, ६, २५, अप धरे ३ १३,
शय ११६ ३१ वीथ २ ५
२२, -ताय वीथ ३, १ ५
सन् (>अं)थी- -त्ती शय १०,
११^f
सन्प- -न्व या ७ १९^f
सन् वि- -त्तम् शीथी २ १४,
३^f
पुंसना पाग १, १, ३०^f
सना-सन्,मा- -न सु १७ ३
शय ७०, ५ १, धरे, ३, ३^f, १४
७, विथ २० ५२, -ताम् अप
धरे, ३, १०^f, १२^f, शय
११६ ३१^f, धरे ६, १४,
शय १०, ११^f, शया ३ ४,
१^f, -ना सु १६ १, -नम्
विथ १, ४८
पुंसना शीथी १८, १५ ५ शीथी

a) वीथ १ द । b) स्या सनीनाम् (मि १, २, ३ च) <> सन्वा (ते १, २, ३, २ च) इति पाठे ।
c) पाठे वीथ १ सन्वे काठ ३९, ५ टि द । d) विप (वाज्य) । त्रयेदमीय यद् प्र । e) उप कर्त्तरि इत् ।
f) एषा सनिव्यन्तम् <> सतनिव्यन्तम् इति पाठे । g) पाठे वीथ १ ससन्वोमे मे ७, १०, ३ टि द ।
h) स्या दिथी १७ २, ४१ सेपादितम् इति पाठे । i) = स्या ते १, १, २, १ प्रथ । काठ १, ३ द साय
इति पाठे । j) शय । k) = सनात् । l) तु पागम् ।

६,४,६; लाथी २,१२,७; गीर्षि;
 ऽपाग १,१,३७;४,५७.
 रसन- > सना(न-अ)र्- -नात्
 माथी २,५,५,२०.
 सना(न-अ)सना(न-अ)र्-
 -नात् माथी २,५,५,२०^{१०}.
 सनक- १सन- द.
 सन्-नक्षत्र,प्रा- -फ्राणि आमिष्ट २,
 ६,३: २;४; ७; ९; वीथ २,५,
 १६-१९; -त्राम् शंथ १२७;
 -थे हिपि १७: ४; -त्रेषु थप
 ५२,१२,२.
 सन्-नख- पाग ४,१,११०^{०१०}; -रम्
 माथी १,१,१,३४; वैथी ३,४:
 ७; हिथी १,३,३५.
 सानरायन- पा ४,१,११०.
 सनाग- > फ्रानाग- -ना: वीथी
 १०,३५: १०; १४,२२: १८.
 सनह्यु- > सनह्य- पावा ५,१,२.
 सनम्- १सन- द.
 सनत्वान- -नाय आजेष्ट १,२,२:
 २०.
 सनन्द्- (>न्दी- पा.) पाग ४,
 १,४१.
 सनन्दन- -ना: थप ४३,३,२; -नाम्
 थप ४३,३,८; शंथ ११३: ३१.
 सन्-नमस्कार- -रम् वीथ ३,१२,१२
 सनथ- प्रथ. १सन- द.
 सिना वाथी १,३,७,३.
 सना प्रथ. १सन- द.
 सन्-नाथ- -थस्य थैसि २०८; वासि
 २,८०.

सिनाद्यमिष्टैवम् वाथी ३,२,६,३२
 सन्-नामि- पा ६,३, ८५; -भयः
 थप २०, १८; माष्ट २,१०:
 १७; वैष्ट ५, ६: १०; हिष्ट २,
 १, १३; निष्ट २, ५^{१३}; वा ४,
 २१; -मा वैष्ट ५, ५: ६^१.
 सन्-नामप्रा(ह>)हर- -हा: श्राथी १
 ४,१४; लाथी १,४,१०; -हाम्
 श्राथी १,१,२८.
 सन्-नामन्- पा ६, ३, ८५; -म, मासि
 त्रथा १६, ७; -मानो वृष्टे १, ११.
 सनाग्नी- -म्य: पि २, १५; -म्यो
 वनिष्ठ ३: १८.
 सन्-नासिक्य- -न्यात् यासि २, १३.
 सनि- ✓सन् द.
 सन्-निक्षेपो(प-उ)पनिधि-फ्रना-
 गतो- -रम् शंथ ३००.
 सनित-, सनिवृ- ✓सन् द.
 सन्-नि(अ>)प्रा- -सं वैथी १३, ७:
 १०.
 सन्-निर्वाह- -हम् क्वा १, ६, १३.
 सन्-निव्याध- -थै: श्राथी १६, १८,
 १४.
 सन्-निपादीक- -कः कु १८, ५.
 सन्-निष्क(स>)सा- -सापम्
 हिथी २, ६, ४.
 सनिष्यम्- ✓सन् द.
 सनिष्यस- प्रथ. ✓सन् द.
 सन्-नीड,ळ- -डा: श्राथी १५, २,
 १; १८, २१, ११; काथी १३, २,
 २४; वाष्ट १३, ४.
 सनीयस्-, सनी-डार- प्रथ. सन् द.

सनुकम् पाग १, ४, ५७.
 सन्नुत(ः)र्- निष ३, २५; वा ६, ७;
 थप १, १०३; छुथा; पाग १,
 ४, ५७.
 सनुत्य- पा ४, ४, ११४; ६, ३,
 ८४; -थ्व: काथी ४, ६, ३;
 श्राथी ५, १, १०; थपथी.
 सन्-नूपुर- -रम् निष्ठ ७, ११: १३.
 सन्-सनेमि- -मि थप ४८, ७०; निष
 ३, २७; ना १२, ४४^१; क्वा
 ८, ५०; १६, ७३.
 रस-नेमि- -मि थप २, ११.
 सं/तत्, सन्-तल्लु: काथी २२,
 ६, १०; वैताथी ३०, १०; लाथी
 ८, ८, १२.
 सं-तट- -थम् श्राथी १७, १, १२.
 सं/तत्, सन्-ततन: वीथ २, ५,
 ५८^१.
 संतनोति थपथी १, ६, ४^१; १४,
 ३४, ३; ४^१; वीथी; संतनोपि
 वीथ २, ८, ४^१; सन्-तनोमि
 आथी २, ५, १४^१, काथी
 २५, १०, २५^१; थपथी
 सन्-तनोत्- आथी १४;
 १६, १; हिथी १५, ५, १; वैताथी
 ४, ३; संतनुव्य थप २, ११,
 ५; सन्-तनु आथी १६, ३२,
 ३^{१०}; वीथी १, ३५: १४;
 माथी; वैथी १८, २१: १^१;
 सन्-तनन्वम् थपथी २३, ११,
 १; १०; हिथी १६, ४, ३२^१;
 संतनुपात्- माथी ३, १०,

a) वि. (आसि)। सन्-। <प्र. मरण- <✓अष्ट। b) सपा. तै ३, १, ८, २ समसनात् इति पाथे.।
 c) = ४४-। d) व्यप। e) तु पागम.। f) वैप १ द.। g) = धर्म-विकार-। [उ. पागम.] व्य. १।
 h) सलन्द इति पाथा.। i) = ३४-। j) = हासि-। k) अष्टुष्टि-नामक-। l) उप. इव. > क्वा.।
 उपनिधि- = ग्यास-निधेय- (द्व. वासु २, २५)। m) उप. = परिवार- (प्रणखिर-).। n) उप. = गवाह-।
 मि/व्यथ् + कर्मणि घञ् प्र.। o) उप. कर्म: ? p) काथी. वा. थ. पाठः। q) पाथे. वैप १ संतनुपासि तै १, ५, १०,
 ३ दि. द.। r) पाथे. वैप १ सन्-तनोत् काठ ३४, ११ दि. द.। s) पाथे. वैप १ संतनु काठ ३०, ८^१ दि. द.।

१५, द्राघी ३, ३, ११, छात्री,
सतनुयाम् हिभी १२, ६, २
सतस्यामहे वाधुधी २, १००३
संवायवे वाधुधी छ ३८ ४७,
१०, ११, १३.
स धत- पाग १, १, ३७, -तम्
बोध २, १, ७, वप्र २, ३, १, १०,
अप २, १, ४, ४, १, १४x, बाघ
सातव- न्ये शत ४, ६, ७
सतत ग- ग विध २०, ५२.
सतत-ज्वर- नम् अप ३६, १३,
१
सतत-भरिनता- ता अप ७०,
११, २९
सतत पाविष्- विनि विध २०,
२२, २६, ४०
सतता(त-अ)तदान- नम् विध
५२, ३०
स-तत, ता- -त आपथी २, १४,
१३, वीथी २५, १८३, ४,
भाथी २, १४, ७, माथी, -तम्
आथी १, २, ८x, शाथी, पाग
१, १, ३७, -तथा वीथी ५,
१३ १६x, पाट, -ता
आपथी १२, १३, ३१, -ता २,
६ २४, भाथी १०, ३, २२, जैथी,
-तानि द्राथी २, २, ११, -तम्
शाथी २ ६, १२. आपथी,
-तायाम् द्राथी ३, २, २९,
लाथी १, १०, २१
सतत-कर्म- संसु वाथी १,
१, १, ७७
सतत-कर्म- नर्मा या ३, १४
सतत धारा- नया वीथी १३,

१६ १, १२, ६: ३८, ५१.
सतत वचन- नाल् भीसू १२,
३, २६.
सतत-बलीक प्रलाव- न
काए २, १०
सतत-स्तुत्य- ल्ये निसू १०,
१०० १५
स-नति- -तये वाथी १, ५, २,
१६१, -ति शाथी २, ६, १२१,
पुंआपथी १, १३, १५x,
वीथी, वाथी ३, ३, १२१,
अशा १६, ११, विध १५,
आपथी १४, १, -विम् पुंआपथी
१, १३. १५, ५, १८, २,
६, ५, ५, वीथी, अशा १७, ४,
आपथी १२, ५, वेपथी ४५,
-ती * आपथी १६, ३२, ३,
माथी ६, २, २, १७, -तीन् वाथी
३, २, ३, २०, अशाय १ ३१,
-त्या आपथी २४, ५ २१,
-त्याम् अशा १८, ६, १२, ६,
-तस्यै शाथी २, ६, १२, आपथी
१, १५, ४x, वीथी
सतति होम- न्ना माट १,
११, १४, १५, -मात् आपथी
२०, १२, ३, माथी १, ६, ५, ८,
वाथी १, ५, १, १०
स-ताय साथी ५, २, ८, ९
पुंलं तनि, वी- -ति^३ द्राथी २, ३,
१७, ७, ४, १६, लाथी १, ७,
१५, ६, १, १x, निट ४,
६ ३x, -नि वीथी २६,
१ ८, द्राथी ७, ४, १६, लाथी
३, ४, १५, -निन साथी ७,

५, १^३, -निना लाथी १०, ४, १,
-निनी निट ८, ७ ३९, -नि
वैथी २०, ३२ ३^३, -नी वीथी
१२, ३ १, २२, १६ १९x,
-नी * वीथी १४, ५ १४,
२५, १८ ११, काए २५ १२,
४७, ७, -नीनाम् वीथी २६,
१८ ३^३, २२, १६ १८,
वाधुधी ३, ७८ ३, वास ३०
२४, ३८ ४, -नीनि^३ निट २,
२ २७, १०, ६ २७, -नीनाम्
वीथी १२, ३ १, २, ६x,
-नीम् वीथी ३, १४ ४x,
-न्या^३ वीथी १२, ३ ४, १,
१३, २६, १ ७
सतन्या(नी-अ)थ- वं वीथी २६,
२७: १३
स-तन्व- न्वत वाम ४० ४,
-पुंन्वन् वाथी ३, १, ६, आथी
२४ ११, ८, जैथी ६. ८
स ता- न् वा आथी ५ १४, ११,
७, १२, १४, राग २८८, -न
आथी ५, २०, ५, -नाट् लाथी
६ १, ८, -नाय साथी १२,
२४, ५, निसू ४, ६: ३x,
वाघ १५, ४, -पुंनेन आथि
३, ७, ३ १३, वीथि २, १,
२, हिनि १२: १०, -नेम्
तेमा ६, १२१, -पुंनि आथी
१४, १६, १, हिथी १५, ५ १
संताव-क- > न निभ- न्ना
अप ५२, ६, ५
सताव-वर्ण- नर्ता या ३, ६
सताव-कर्म- संसे या ३, ४, ५.

a) वेष १३ । b) = उवर-भेद । c) यत । d) बलीक- = पटल प्रान्त- । e) तय, माट १,
४, ६ वाए ८, ६ बलीक-प्रान्त-इति चर्षम् इति पाठे । f) = शांति विचार- । g) = इष्टका विरोध । h) = नान्त
विरोध- । i) एक णि इति, णि इति च पाठौ वनि गोवौ द्र (द्र द्राथी एव, च) । j) = इष्टि विरोध ।
k) = होम विरोध । l) म्यप (वसिष्ठयुत्र-)

सतान ल- ज्ञानाम् शब् १६२
 सतान नामन्- स या ६, ६
 सतान-रूप- -यम् निम् ५, ६
 २६
 सतान वर्धन्- नम् वाय ११,
 ४१
 सतान सशिवत्- -ता अय ५२,
 ७,१
 सताना(न श)ये,र्थी- -यं शीथी
 १, १, २५, ६ १, १०, -धम्
 निम् ८ ५ ३७, १०, ८
 १३, -र्थां निम् ९, ३ ३५,
 -र्थानि निम् ८, ५ ३६,
 -र्थायम् आपथी १७, २५,
 १३, द्विथी १२, ७, २६, -थं
 आपथी १७, २४, ११, वैथी १९
 ८ ८, द्विथी १२, ७, २२, निम्
 १०, ३ २९
 स तनि,नी- स√तद् द
 स√तद्, सतपन्ति, प्सम् लपन्ति
 या ४ ६, सम् (तपन्ति) श्रुदे ७,
 ३४१
 प्ससाप्सी शीथी ६ १२, १२,
 आपथी ६ १०, ११, माथी ६,
 १२, ९, द्विथी ३, ७, ७२,
 प्ससाप्सम् आथी १३ ५, शीथी
 १, ६ ११, ६ १२, १३, वीथी,
 आपथ २, १, ३०, भाष्ट २,
 २२ १२^०, वाष्ट २ १३^०, द्विष्ट
 सतपयन्ति वीस् ८० २१
 स तपन- पाय ५, ४ ३८^०, -नाय
 औस् १३५ ३
 सतपन्- पा ५ ४, ३८,
 पावा ५ ४, ३६, -न शीथी १४

१०, १६, आपथी १७, १६,
 १८, २२, ८, १५ वीथी, वीथ
 ४, ५, १३^०, -नम् वीथी १५ १०
 १३^०, वाष्ट ७, १, ३, २५, ८^०,
 शब् ४२१, ४३२, वीथ ४, ५,
 ११^०, विथ ३८, ७, ४६,
 १९^० ४४, छुप ६४, -नय
 आपथी ८ ९, ९, वीथी १७,
 ५७ ९४४, भाथी, -ना
 शीथी २, १८, ३, -प-ना
 शीथी २, १८, ३, शीथी ३, १५
 ६, वैताथी ९, २, वाष्ट ८ ६,
 वीस् ४८, ३८, अय ७ ७७, अय
 २ ७४, -नामम् वैताथी ९
 २, -ने वीथी २१ ६ १७
 -नेर्वां शीथी ४, १५, २३, वीथ
 ५ ६, ६, जैष्ट २, ५ १, -नेय
 शीथी ३ १५ ५, १४, ८, ४, माथी
 सातपत्ता (ना [न श])
 त्रि->नाग्रेय- -यम् अय ६,
 ७६^०
 सातपनीय,या- यस्व
 द्विथी ५ १, १८, -यार् मीस् ५
 १, ३० -याम् शीथी ५ ६, २६^०
 सातपनि- नि शीथी ५
 २२ ६
 सतपना(न ल)त्रि- -त्रिना
 अत्रिष्ट ३, ४, ४ ७
 स तप्यमान- वे अत्राय ३, ३
 स-नाय- पाय ५ १ १०-१ -पाद्
 वीथी १० १३ १९, वैथी १८
 ७ ७ -पेन माथी ६ १, ३, २४
 सात(प>)या^०- वे अय
 ४८ ६०^०

सातापिक- पा ५, १, १०-१
 साताप-ल- -नाय् वाथी २५, ७,
 १३
 स-तापन- नम् मीस् १० १, ५३
 स तमस- पा ५ ४, ७५
 स-तर- ->याम् आपथी ११, २,
 १^०, १६ २७, २३, वीथी ५
 १२ १२, ६, १९ २३^०, २४^०,
 भाथी १२ २ ३, ४, द्विथी १०,
 ३, ३४^०, १२, ७, ५८
 स-तर- स√तद् द
 स तर्पण- -यं स√तद् द
 स तष्ट- स√तद् द
 स तान- प्रम् स√तद् द
 स तार- स√तद् द
 सन्ति- √सत् द
 स तिष्ठन्ती-; छमात्- स√त्या द
 स√तु >पस-ववीक्य^०क- लव्
 या २, २८^०
 स√तुल्, छमवोक्तयत् वाय २, ४२,
 वीथ १५ ७९
 स√तुर्>सह- ए वीथ ३ १,
 १९ -थ अय १, १०, ९, अय
 ३०, २ १
 स तोप- प वाय ३० ८
 स√तद्, सतुल् शीथी १७ १ ९
 सतृण्ति आपथी १२, १३, २ ३
 स उर्दन- नम् मीस् ३ २, २४
 स-तृण- ण्णा आपथी ११, ११,
 ५ द्विथी ७, ६, १, -ण्णान् वीथी
 ६ २६ १४^०, वैथी १४ ७ ५,
 -ण्ण शीथी ८, ५ २३, आपथी
 २२ ४ ४७ वीथी ६ २८ ३७,
 द्विथी -ण्णी वैथी १३, ७ १२

a) उप कर्त्तरि ह्रत् । b) पाप्मे वैष १ १९९१ ० द । c) तु पायम । d) वैष १ द ।
 e) = प्रागधिक विशेष । f) = अमि विरेप- (तु शी ६ ७६, २ वाष्ट १३, ५ २, ३) । g) = श्रुति विराय ।
 h) भी- इति वा भीषा- इति वा सोष सम्भाव्यतः । i) = दावाप्यिवी । j) यामे ष्ट १८७ टं द । k) वैष्ट
 वा अस्तुत् इति । l) याम वैष १ स सुनिष्यद्वा मां ९, १४ टि द ।

सन्त्य शशी ४, १०, ५, माथी २
२, ३, ८
सन्त्य-य शशी १७, १२, १,
-ये आश्री ११, १३, २, वैथी
१४, ९ २, तैत्रा ४ १११
सं० वृत्, संसम् कृष्णुत आश्री ३,
११, २, माथी ३, १०, २, हिथी
सतर्पयति वीथी १, १४ १२, २७,
१२ ७, वैथी १६ १ १०,
सम् तर्पयति वीथी २७ १२
४, संतर्पयेत् वीथी २१, २२
३०
स तर्पण- गम् वीथी १४, ९ ४८,
-गे वीथी २१, २२ २९
सं तर्प्य आश्री ३, १, १०, वीथी
स गृह- स वाधुथी ४, २९ १३,
३० २५, -सम् वीथी १४,
१३ १, २२ ८, वैथी १५ ११
१७, -सस्य वीथी ७, ५ २४,
-सानाम् वीथी २७, १२ ८
स गृह्य दिपि १५ २०
सं० वृत्, संसम् त्रिपि वीथी ६ ९
११, २१, १० ३०, सत्तरन्तु
आथी ३, १४, १०, संसत्तर
आमिष्ट ३, ८, २ ४७, वीथि १,
१५ ५४.
संसम् (त्रिपि) आथ ३, ७, १०,
थीय १, १८, ४, नम
सत्तरयति पिप १५ ४७
संसत्तर- न्त्वं माथी २, १, १, ६
सत्तर- र वीथ ४, ३, ६
सत्तोप- स/वृत्
सं० वृत्, सत्यत्रिपि वैप २, १५
१०

सन्त्यय वृदे ५, १६
सं० वृत् > सत्तरस- स वीथ ४,
४, १२
सन्त्यास्य वीथी १६, ९ १२
सं० वृत् > सत्तरमाण- गस्य
आथय १, ५, -गा आश्री १२
२९, १२, वीथी २५, १० २२
सत्तरा- ना आथी ६ ६, १३
सन्त्याश्रुति- के काथी ७, ५
२५
सं० वृत् > सन्त्या- ना वीथी १८,
३६ १३, श्रया १४, ११,
-गाम् वीथी ९ ४ ४, १०, ७
६ ९ १६, १८ २, -शानाम्
वीथी १३, ९ २, -शन आश्री
२२, १३, १३, वीथी, हिथी
१७, ५, ३४, काथी ९, ४, ३८,
-शौ वीथी १३, ७ १२
सदृश-वृद्धे- र विथ ५,
१३५
सदृश रूप- पम् विरू ७ १२
५
सदृश-वृद्धे- श्री काथी २२,
११, २३, साथी ९, ४, ३७
सदृशा(स अ)तुस्तोम- मी
वाथी १४ २२, ४
सदृश- न्नेन वीथी १३, १२ ४
सदृश माथी २, ५ ४, ७, हिथी
९, ४, ५२
सदृश- रम् नम्रा १४, ६
सदृश-ना- ना श्रया १४, १३
सन्त्याध- सं० भा ६
सदृश- न्नेन- प्रम् व/र्या ६
सन्त्याध, सदृशति वाधुथी ४, ८७

९, सदृशति वीथी १२, ४ ८,
सन्त्याध आश्री ४, ११, ५ ६
२१, १, माथी ४, १७, ३, हिथी
६, ३, ८, संसम् दह माथी ५
२, ८, ९, हिथी १५ ८, ४,
सन्त्याध वीथ ५ ५, ५ ४
१८, ३, सदृशेत् वीथी २५ ५,
५ अथ ६२, १, ७
सदृशेत् आथ २, ९, सदृश
आथय २, ९
सदृश- न्धम् वीथी १२, ४ १,
-धानाम् वीथी २७ १२ ६
सन्त्या- स ताय सं० दो ६
सन्त्या- सं० वृत्
सं० वृत्, संसम् दिनेष्ट सन्त्यादि
वृत्) आथ १, ११, ३,
सदृश वीथ १३, २, २५
सदृश- न्धम् वीथ ४, २४
सन्त्या, सदृशेत् गा २, ७, १०
सदृश, गधा- न्धम् विप ७ १२,
माथ १०, ८, १६, -गधा माथी
१९, १८, १२, श्रया २, १, ६
-गधाम् माथ ९, २४, -गे वृत्
१, ३, ३, ६१, -गे वृत्
१, ४, २९, ३, १, २, २, -गी वा
२, ८
सदृश तुस्तोम- ना वीथी
२३, ४ १२, -गध वीथी २६
६ २०
सदृश वीथ १३, ३, २६, २१
सदृश- र पाए २ १७, ४, का
६८, १, १९, अथ १ १२ ४४,
पाए १, ३, ९, ६, २, ३, ६, -र

a) सत्तर ३ १, ५, १०, ४ सत्तरति इति पाठे । b) उप मारे अर्थ प्र । c) वैप १ ६ ।
d) = एकादश-विशेष । e) भाप (सन्त्य उपाधारे दोष निषेध) । f) एकादशो इत्य । g) उप न्त्वं न्तु
इति गोष (दृ ७ दि) । h) = सं-दं-ना उप कथं च्युद प्र । i) पाठे वैप १, १८११ ह प्र । j) पाठे
वैप १ सुम् "दधातु, सुम् (दधातु)" अ १०, ८५, ४७ डि. प्र ।

वा २,७, -हाय अया ३,३,२१,
 शीव ४,५१, वावा ६,१, १५४,
 मील ११,४,३२, -हाताम् भाधि
 १, -हे वाध १५,७, शध २८०,
 आपध, -हेषु नाधि २,८,१८

सं०दी,सम् दिदीहि आधौ ३,५,
 ११

सं०दीन् > सं०दीक्षित- वा वीथी
 २६,१२, १२, -तानाम् अयाय
 ६,६

सं०दीप् > सं दीपन- > जन-
 (त)वी- वी आधौ २५,७,
 १२

सन्दीपित- वे जैधीका ५२

सं०दु > सं दाव- पा ३,२,११,

सं०दुह्, संदुडालाम् आपधौ १,१२,
 १७, माधौ १, १,२, २५, हिथौ
 १,३,३६

सदुष्य- न्यम् वीम् १२०, ३,
 १२६,६

सं दोह आधौ ८९,१२

सं०दृष्ट, संसम् दक्षसे आधौ ७,
 ३,३, वैताधौ ३३, ३, ४२, २,
 या ४, १२४, संसम् (द्वयते)
 आधौ १२,१,४, १८,२,२
 सदृश्यसे या वे, ११, ४ १२,
 सदृश्यत आपध २ २५,५ हिथ
 २,५,१८३

संसदृशिरं आपधौ ७, २८, २,
 हिथौ ६,८,६

सं दृश- सं वीथी ९५ ३२०

सं दृशिन- नम् वीथी ९ १९ ४७,
 वीथ ३ ४, २५ मासि १३ ६,

-नात् वीथ ३, २, १२, वीथ
 २२, ४, -नाय वा १०, ४०,
 -ने काधौ २६, २, २९८, वाध
 १०,१६, आपध १,९,१७, हिथ,
 -नेन वीथौ २५,५ ७

संदर्शन- नी वीथ ३,२,६
 सदर्शन-वृत्तिक- का वेध १,
 ८,१.

सं०दीपित- ना वा १०,२६

सदृ- दृक् या १०, २६११, ११,
 -पृष्ठा शीथी ४,१३,१, वीथी,
 -पृष्ठा आधौ ८, १८, १८८,
 वीथी ६, १३ १३xx, माधौ,
 दाधौ १३, २, १०, लाधौ ५
 ३, २, ११, माध १, ११, १८,
 जैथ १,१९ १०, वा १०,४०४,
 -पृष्ठासे पाठ २५,४२

सं दृशे आपधौ ७,१९, ४, माधौ
 १,८,४,१८, काधौ
 सदृश्यमान- नयो माधौ ५, १,
 ९,१७

सं दृष्ट- > ७ हनु- तु मासि
 १२५

सदृ- दृ वा १० २६

सं०दी (शब्दे) > सं दान- नम्
 आपधौ १९ २६, ११, काधौस
 ३५ १४,१५ वीथी १३ ३७
 २xx, माधौ, -नात् वीथी
 १३, ३८ ३xx, -नेन वीथी
 १३ ३७ ५xx
 सदान निवोजन- वे पाधुथी
 ३,१०० ५

सं दाय काधौ २६ ५४

सन्दिग्ध वीथी १३, ३७१६, १५,
 २४ १७

सं०दु,संदृबन्ति,सम् दृगन्ति वा
 ९ १९१

सन्नाय- वा ३,२,२३

सं०धन्, सम् दधन्वे वा ३, ४१,
 संसम् (दृग्भित्ते) वीथी १३,४
 ६,७ ९, १३ ७

सं०धा, सधचे वैथी १,१ २७, १५,
 २८ १९, सदृधाति काधौ २५,
 १४,३६, आपधौ २ ११,९,१८
 १, ९xx, वीथी, सधत्त काधौ
 १ १०, ८१, आपधौ १२, २२,
 ६, ८१ वीथी, संसदृधति
 आपधौ १६,२९, १, वैथी १८,
 २० ६, हिथौ ११, ८, २,
 संसदृधाति आधौ ३ १४, १०,
 आपधौ ९ १३,८, १४, १६,
 १, वीथी ३, १४ ६xx,
 माधौ, हिथौ ३, ६, १५, संसम्
 दृधामि काधौ १३, १२,
 १३१, आपधौ २, २१ १, हिथी
 २ ५ ४७, संसम् (दृधामि)
 आपधौ २,२१,१, हिथी २,५,
 ४७, सदृधात् वीथी १,१२,६१,
 संसम् दधात् काधौ १७,१५,
 १० १२, संसदृधात् अयाय १,
 ३१, संसम् दधात् आधौ २,
 ५,१४, वीथी ३, १४ ५xx,
 काधौ, पाठ १, ४, १४, अय
 २२ ९ ४, संसम् (दृधामि)
 काधौ १६ ३,२ आपधौ १६,
 ३,७, हिथी, पाठ १, ४, १४, १,

a) पावा १,३,२६ परासृष्ट द । b) =सया तैत्रा २ ४,७,११ । क ३,८,१० वां १०,२ सुदृष्टे इति पाठे ।
 c) परस्पर पाठे । d) = वृत्ति विरोध- । e) पाठे वैप १ सवृत्त काठ १८,१ टि द । f) सया १दृति (तैत्रा १,१,
 ३ प्रथ) <> ष्ठे <> सि ६, ३,४ १ी ७, ७,१,९ दृल इति च पाठे । g) सदस इति पाठ १ वनि जोष
 (दृ शाथी) । h) वैप १ द । i) पाठ २ स दृष्ट इति समाभ्येत । j) पाठे वैप १ सुदृधामि तै १,५,१०,२ टि
 द । k) पाठे वैप १ ११४८ अ द । l) पाठे वैप १ सुम् दधात्, सम् (दृधामि) तै १०,८५,४७ टि द ।

स-तृच शाश्री ४, १८, ५, माश्री २
२, ३, ८
स तृच- -च शाश्री १७, १२, १,
-चे आश्री ११, १३, २ वैश्री
१७, २, तैषा ४ १११
स/वृद्ध, षष्ठम् वृष्णुत आश्री ३,
११, २, भाश्री ३, १०, २, हिश्री
सतपंथि वीश्री १, १४ १२, २७,
१२ ७, वैश्री १६ १ १०,
सम् तपंथि वीश्री २७ १२
४, सतपंथे वीश्री २१, २२
३०
स तपण- -णम् वीश्री १४ ९ ४८,
-णे वीश्री २१, २२ २३
स तप्यं आश्री ३ १, १०, वीश्री
स मृत्- स वाध्री ४ २९ १३,
३० २५, -सम् वीश्री १४,
१३ १, २२ ८, वैश्री १५ ११
१७, -सत्य वीश्री ७, ५ २४,
-सानाम् वीश्री २७, १२ ८
स कृप्य हिषि १५ २०
स/वृत्, षष्ठम् वरति वीश्री ६ ९
११, २१, १० ३०, सतरतु
आश्री ३, १४, १०, षष्ठम्
आश्री ३ ८, २ ४७, वीश्री १,
१५ ५४
षष्ठम् (तिर) आश्री ३, ७, १०,
वीश्री १, १८, ४, ऋष
सातरपति विष १५ ४७
षष्ठम्- -स्य माश्री २, १, १, ६
स-वृत्- -र वीश्री ४, ३, ६
स-तोप- स/वृद्ध
स/वृद्ध, सत्यजति वैष २, १५,
१०

स-व्यज्य वृद्ध ५, १६
सं/प्रसु>स शास- -स वीश्री ४,
४, १२
स-जात्य वैश्री १६, ६ १२
स/वृत्, षष्ठम्- -णम्
आश्री १, ५, -णम् आश्री १२
२९, १२, वीश्री २५ १० २२
स-वृत्- -रा आश्री ६ ६, १३
स वरा श्रुति- -ते काश्री ७ ५
२५
स/वृद्ध>स-दश- -श वीश्री १८,
३६ १३, ऋषा १४, ११,
-शम् वीश्री ९ ४ ४, १०, ७
६, १ १६, १० २, -शाम्याम्
वीश्री १३, ९ २ -शेत आश्री
२२, १३, १३, वीश्री, हिश्री
१७, ५ ३४, लाश्री ९, ४, ३८,
-सौ वैश्री १३, ७ १२
सदश- -ते- -र विष ५
१३५
सदश रूप- षष्ठम् वीश्री ७ १२
५
सदश-वृत्- -श्री काश्री २२,
११, २३, लाश्री ९, ४, ३७
सदश(त म)नुस्तोम- श्री
वाश्री १४ २२ ४
स दश- -नेन वैश्री १३, १२ ४
स दश माश्री २ ५ ४, ७, हिश्री
९, ४, ५२
स-दृष्ट- -ष्टम् आश्री १४, ६
स-दृष्ट- -ता ऋषा १४, १३
स-वृद्ध- स/वृद्ध
स दश- -शान- षष्ठम् स/वृद्ध
स/वृद्ध, सदशति वाध्री ४, ८०

१, सदशमि वीश्री १२, ४ १
षष्ठम् आश्री ४, ११ ५ ६
२१, ११, माश्री ४ १७, ३, हिश्री
६, ३, ८, षष्ठम् - दश माश्री ५,
२, ८, ९, हिश्री १५ ८, ४,
षष्ठम् वीश्री ५, ५, ५ षष्ठम्
१८, ३ सदश काश्री २५ ७
५ वर ६२, १, ७
सदशेत आश्री २, ९, सतरतु
आश्री २, ९
स दश- -शम् वीश्री १२ ४ १
-शानाम् वीश्री २७ १२ ६
स-दान- -स दश स/वृद्ध
स-दाव- स/वृद्ध
स दित्य स/वृद्ध
स/वृद्ध, सप्त दिवस सम्यक्ति
षष्ठम् आश्री १, ११ ११
स दिवस कौम् १३९ २५
स-देश- -शम् वीश्री ४६, १४
स/वृद्ध, सदशते वा २, ७, १०
स दिवस, षष्ठा- -शम् विष ४ १२
वीश्री १०, ८, १६, -शाना वीश्री
१२, १८, १३, ऋषा २, ३, ६
-शाम् गोष ९, १४, -शे षष्ठम्
१३, हि ३, ६१, -शे षष्ठम्
१, ४, २९, ३, १, २०, -श्री वा
२ ८
सदिश पुरोडास- -श वीश्री
२३, ४ १२, -शाम् वीश्री २६
६ २०
स दिवस वीश्री १३, १, २६, ११
स-देश- -र वीश्री २, १७, ४ ४
६८, २, १९, ऋषा १ ४२ ४४
वाश्री १, २, ९, ६, २, १६, -श

a) सवा ते १, ५, १०, ४ सुवर्तित इति पाठे । b) उप आने षष्ठम् । c) देव १६ ।
d) = एषाद-रीतेन । e) भाष (सदश [वृषारणे दोष विधेय]) । f) एषादयो इति । g) उप षष्ठम्
इति गोष (शु ८ टि) । h) = स-दश । उप षष्ठम् सुदृष्टम् । i) पाठे वैष १, १०११ h द । j) ८२
वैष १ शुष्म दशात्, शुष्म (दशात्) ऋ १०, ८५, ४७ टि. द ।

वा २,७, -हात् अत्रा ३,३,२१,
 शीष ४,५१, यावा ६,१, १५४,
 मीत् ११,४,१२, -हानाम् भाशि
 १, -हे वाप १५,७, अथ २८०,
 आपथ, -हेपु माशि २,८,१८
 सं०दी,सम् दिदीदि आथो ३,५,
 ११
 सं०दीत् > सं०दीक्षित- -या बीधो
 २६ १२ १२, -जानाम् अप्राम
 ६,६
 सं०दीप् > स दीपन- > ल-
 (त् >) वी- वी काथो २५,७,
 १२
 संदीपित- -ने वीधोका ५२
 सं०दु > स दान- पा ३,३,२३.
 सं०दुह, संदुहाताम् आथो १,१२,
 १७, माथो १,१,३, १५, दिधो
 १,३,३६
 संदुष- -अथ बीत् १२०, २,
 १२६,६
 संदोष आथो ८१,१२
 सं०दृक्, संदृक् दृश्ये आथो ७,
 १,३, वेताथो ३३, ३, ४२, २,
 मा ४, १२३, संदृक् (दृश्ये)
 आथो १२,१,४, १८,३,२
 संदृश्यसे मा ३, ११, ४ १२,
 लदृश्येत् आपथ २, २५, ५ हिष
 २,५,१८३
 संदृश्येत् आपथो ७, २८, २,
 दिधो ६,८,६
 संदृश- -ने वीधो ९, ५ ३२०
 संदृशन- -नम् बीधो ९ १९ ४७
 वीथ ३, २५ माशि १३, ६,

-नात् बीष ३, २, १२, गीष
 २२, ४, -नाथ या १०, ४०,
 -ने काथो २६, २, १९०, वाष
 १०,१६, वापथ १,९,१७, हिष,
 -नेन वीधो २५, ५ ७
 संदृशते- -नी वीष ३, २, ६
 संदृशन वृषिक- का वेष १,
 ८, १
 संदृशयित्- -ता या १०, २६
 संदृ- -रक् या १०, २६ ११३०,
 -सृत्ता काथो ४, १३, १, वीधो,
 -सृत्ति आथो ८, १४, १८०,
 वीधो ६, १३ १३xx, माथो,
 माथो १३, २, १००, काथो ५
 ३, २००, माथ १, ११, १८०,
 वीथ १, १९ १००, या १०, ४०००,
 -सृत्ते काथ २५, ४२०
 संदृशते आथो ७, १९, ४, माथो
 १, ८, ४, १८, वाथो
 संदृश्यमान- नयो माथो ५, १,
 १, १७
 संदृष्ट- > ष हनु- -उ माशि
 १२५
 संदृष्ट- हा या १०, ०६
 संदृष्टे (वृषणे) > स दान- -नम्
 आथो १२, २६, ११, काथो १
 ३५ १४, १५ वीधो १३ ३७
 २xx माथो, -नात् वीधो
 १३, ३८ ३xx, -नेन वीधो
 १३, ३७ ५xx
 संदृशन विद्योजन- -ने वाथो
 ३, १०० ५
 संदृश काथो २६ ५४

स-दृश्य वीधो १३, ३७०६, १५,
 २४ १७
 सं०दृष्ट, संदृष्टयित्, सम् दृशयित् या
 २, १९१
 संदृष्ट- पा ३, ३, २३
 सं०दृष्टम्, सम् दृश्ये वा २, ४१,
 संदृष्ट (दृश्ये) वीधो १३, ४
 ६, ७ १, १३ ७
 सं०घा, सवधे वीधो १, १ २७, १५,
 २८० ११, संदृष्टि काथो २५,
 १४, ३६, आथो २, ११, ९, १८,
 १, १xx, वीधो, सवधे काथो
 २ १०, ८१, आथो १२, २२,
 ६, ८१, वीधो, संदृष्टयित्
 आथो १६, २९, १, वीधो १८,
 २० ६, दिधो १३, ८, ३,
 संदृष्टयामि आथो ३ १४, १०,
 आथो ९, १३, ८, १४, १६,
 १, वीधो ३, १४ ६xx,
 माथो, दिधो ३, ६, १५, संदृष्ट
 दृष्टयामि वीधो १३, १२,
 १३१, आथो २, २१ १, दिधो
 २ ५, ४७, संदृष्टयामि
 आथो २, २१, ११, दिधो २, ५,
 ४७, संदृष्टयामि वीथ १२, ११,
 संदृष्टयामि दानव काथो १४, १५,
 १०-१२, संदृष्टयामि अप्राम १,
 ११ संदृष्टयामि काथो २,
 ५, १४, वीधो ३, १४ ५xx,
 वाथो, पाथ १, ४, १४, अ
 २२ १ ४, संदृष्टयामि
 काथो १६, ३, २ आपथो १६,
 १, ७, दिधो, पाथ १, ४, १४, १,

a) यावा १,३,२९ पराच्छ द । b) = सधा तेका २ ४, ५, ११ । क ३, ८, १० हां १०, २ सुदृश्य इति पाठे ।
 c) परस्पर पाठे । d) = कृत् विद्येय । e) पाठे वैप १ सवृक् काठ १८, १ टि द । f) सधा १दृति (तेका १ १,
 २ प्रम्) << >> ष्टे << >> सि ६, ३, ४ हां ७ १, १ वृष इति च पाठे । g) सवध इति पाठ १ दनि शोष
 (ह काथो) । h) वैप १ द । i) पाठ १ स वृष्ट इति सभाव्यते । j) पाठे वैप १ सुदृष्टयामि ते १ ५, १०, २ टि
 द । k) पाठे वैप १ ११४८ ७ द । l) पाठे वैप १ सम् दृष्टयामि सम् (दृष्टयामि) क १०, ८५, ४७ टि द ।
 वैप ४ प्र ५२

संघाताम् वीथी २७, ६ : ६१;
 संतुष्यत् हिथी ९, ५, ३६;
 वेताथी २४, १; संसिद्धि आपथी
 ३, १२, १; वेताथी ७, ५, अण
 ४५, १, ११; संस्यत् आपथी
 १२, २२, ६, ८; वीथी ७, १३:
 १६; १७; १८; माथी; संस्य
 ...दधात् आपथी १६, १८,
 १; वीथी १०, २५ : २; वाथी;
 संस्य (दधात्) वाथी ७१, १३;
 समघत् गोथ ३, ७, २११;
 समघत्स्य वीथी ११, ९ :
 ७१; संघीत् वीथी २०, ३१ :
 ५; संघ्यात् आपथी ९, ४, १;
 १५, १७, ८; २४, ११, ११; माथी;
 संघ्याताम् वीथी २१, २० : १;
 संघीत्स्य वैथ १, १४ : १२;
 संस्य (दधुः) वाथी ४, ७, ४,
 समघाताम् वीथी ४२, १७१;
 संस्य...घाः वीथी ३, १३ :
 १३; १४.
 संघीयते आपथी १०, १४, ९१;
 वीथ २, ४, १९; २२; संस्य...
 धीयते वाथी ३, १३ : १५.
 संघायति वीथी ११, २ : १०.
 संस्यित्, वा^१ - पाथ ४, २, ६०; ६,
 २, १४६; पावा ६, १, १४४; -तः
 आपथी १३, ६, १३; वाथी ४,
 १३ : ७; वाथी; -तम् वीथी
 १०, ५७ : १०; हिथी २, ३, ३१;
 ९, ८, ३१; २१, १, १४; लाथी
 ६, ११, ४; सुथ १, ३ : २२;
 ५ : १८; निथ; -तः
 वाथी २, १२, १; वाथी ४,

१२, ६; आपथी ६, १७, ४;
 ५; वीथी; वीथि २, ४, ७; ८;
 मा १, १७^१; २, १^०;
 ११, १६^०; -तः आपथी ६,
 २८, ५; १६, १४, ४; १९, ५;
 वाथी; वीथि १, ७, १४^०; वैथ
 २, ८ : १७^१ × ४; वीथ; -वान्
 वाथ ६, ४, ७^०; -तानि आपथी
 १९, २१, १८; हिथी २२, ४, ७;
 -तान्याम् आपथी १७, १५,
 १; वाथी २, १, ७, २; वैथी २१,
 १५ : १०; हिथी; -तम्
 आपथी २, १९, ९; माथी २,
 १८, १; वाथी; वैथ २,
 ८ : १६^०; अथ ३ : ४^०; ५^०;
 अथ १, १, २^०; -तान्याम् कथ
 ३, ८, २०^०; अथ ३, ९^०; अथ
 २, ३५^०; वथ; अथ ३, १^०; ४,
 १९^०; तथ; -ते आपथी ११,
 १३, ६; वाथी ९६; हिथी; -तौ
 वाथी ३, १, २२; लाथी १, २४.
 संस्यित् -तः अथ १४,
 १; तथ ९, १७; -तम् अथ
 ३, ३, १९. -तेत् तथ २०, ३.
 संस्यित् -तीत्यः वीथ
 ६, १७, ४; २, ५; माथ ३, ४ : ४.
 संस्यित् - वा ४, २, ६०.
 संस्यित् -वात् -निथ^२ -तः अथ
 २४, ३, १.
 संस्यित् -वात् -तयोः वाथी ३,
 ४, ४, १५.
 संस्यित् -काल -ते अथ ८, १६.
 संस्यित् (त-अ)थ^३ -प्रो वैथ १,
 १९ : ३६.

संस्यित् (त-अ)थि - दि
 वीथीका १८६.
 संस्यित् (त-अ)थ्यत - तम्
 वाथ ४, ३३; २०, ४६.
 संस्यित् (त-अ)थ्यत (थ-अ)
 थं - थ्यत् वीथ ४, १०८.
 संस्यित् (त-अ)थ्यत - तयोः
 १, १४८; वीथ ४, १२७; वैथ
 २५१.
 संस्यित् (त-अ)थ्यत - तयोः
 पावा १, ४, ११०.
 संस्यित् (त-अ)थ्यत - थिः अथ ४
 ८; -थी अथ ३, १, १९.
 संस्यित् (त-अ)थ्यत - तः वाथि
 १, २०.
 संस्यित् (त-अ)थ्यत - वा ४,
 १, ७०.
 संस्यित् - थ्यत् वीथ ७, १३६
 अथ २, ३; ११, २४; २३; ५९.
 संस्यित् - तथ आपथी १८, ५
 २^०; वीथी; -तानि वीथी ४,
 १३ : १९; ३४; वैथी १५, २८ :
 ४; २९ : १; -तान्याम् गोथ ३,
 ७, २१.
 संस्यित् - तथ वाथी २५, ५, ३०;
 आपथी १, ७, १; वाथ २४, ३;
 -तानि वीथी २०, १० : ४
 -तः वाथ ४० : ४.
 संस्यित् - तम् वीथी १, १, १३;
 ६, १, १५; वाथी ९, १, ८; लाथी;
 -तम् माथी ५, २, ११, ३;
 -तान्याम् वीथी १५, २० : ६;
 -ते वीथी २१, २० : १४;
 तथ; -तौ वीथी २०, ६ : ५.

a) = वथ. त १, ७, ८, ४ । b) वैथ १ निथिथोः
 उभापोः द. । c) = तान्-विभो- । d) वाथ-विभो- । e) पारिवापि-विभो- । f) = संस्यित्- ।
 g) विथ. (वात्-) । वत्- > पत्- । h) वत्. (त. आपथी २०, १८, ४) । i) वत्. । j) वैथ १६ ।
 k) पाथो. वैथ १ संस्यित् वि. द. । l) व्यथ. ।

संपान-कर- नैः माथी ३, १, २४.

संपान-काठ- ले आपथी १९, ५, ११; द्विथी २३, १, ८.

संपान-मात्र- श्रे वैथी २०, १६: ११.

संपान-सामन्- मनी वैथीका ७४.

संधाना(न-भा)दि- न्दि माथी ३, १, २४.

सं-घाय आपथी ३, १४, १०; ८, १४, १५; शोथी.

सं-धि- नघवः द्राथी १०, ४, ८; लाथी ३, १२, ७^१; निम् २, ७:

२९; श्रा २, २०; ४, ८९; -घये आपथी १६, ३१, १^१;

वौथी^१ १४, २०: ११; १७, ११ १९x; वैथी; -धिः आपथी

१४, ४, ३^{१०}; २६, ३१, १^१;

वौथी २६, २५: १९^१; १८, १५: १२^१; वैथी १८, २:

५५^१; द्विथी ११, ८, ४^१;

लाथी ९, ७, ८^१; वैताथी २०, १२^१; निम्: -धित माथी १४,

१, २०^१; आपथी ७, ११, ६^१;

माथी ७, १०, ५; छाय १, ७:

१२^१; आपनं २, १४, २^१; आश्रि २, १, ३: २४^१; भाए १, २२:

१७^१; द्विथी २, ३, ७^१; -धिनिः आपनं २, १९, ५^१; -धिभ्यः आपथी १६, ३१, १; वैथी १८,

२: ५५; द्विथी ११, ८, ४; -धिम् आपथी २, १, २३^१; काथी १४,

१, १९^१; २५, ५, २०^१; वौथी; द्राथी ३, २, २९^१; लाथी १,

११, २२^१; छाय १, ७: ५^१;

आपनं १, ७, १^१; आश्रि २, २, २^१;

आश्रि २, ६, ४: ६^१; -धियु आपथी २, ११, २३x; वौथी

६, २७: २०; वैथी; -धी आपथी ६, ४, ७; वैथी १२, ८:

९; निम् २, १२: १६; १३: १६; श्रा ४, २६; -धियु माथी

२, २, ३, २१; श्रा २, ७; २, २, ३१; लम् ७, १; -धेः काथी

१२, ६, ९^१; वौथी २०, १: ३; जैथी १५: १३; द्राथी;

लाथी ५, ११, ७^१; निम् ४, १०: १४^१; ११: २^१; -धी

शोथी १७, ४, २; २; आपथी; नाथि २, ५, ६^१; -धोः निम् ३,

५: २६; आपथ १, ११, १५; २७, ५^१; २०, ८^१; द्विथी १, ३, ६८^१;

८, ८^१; आपथ ११, ५; द्विथी ४, ७.

संधि, संधयेत् शोथि २९८; ३००; ३०२.

संधित- यम् मैत्र ३१.

संधि-काठ- ले वाए १५, १४.

संधि-चमस- लाः माथी २, ५, ३, १७; आपथ ६, ७; -साद् आपथी १४, ४, २; १२; वैथी; -सेयु वैताथी १२, १७; -सैः

द्विथी ९, ७, ६०.

संधिचमस-यत् आपथी १४, ४, १५; वैथी १७, ५: ६.

संधिचमसा(रु-आ)स्य- यानाम् आपथ ६, ७.

संधि-ज- आः शोथ ३, १३, ५^१; श्रा २, ३४; -जौ कौत् ७३, १३; याथि २, ५४.

संधि-जात- जामि निम् १, ७: ३१; ३३.

संधि-द्वय- यम् शंध ४५७: ४.

संधि(व >)नी- न्याः शंध ४१८.

संधिनी-क्षीर- रम् वौथी २५, ९: १९; वाघ १४, ३४; -रेण कौत् ८०, २५.

संधिन्व(नी-क्ष)मेध्यम- (क्ष >)क्ष- न्यापाः शंध ४१८.

संधि-मस- न्याद् निम् ३, २: १२.

संधि-मत्- मत् कौथि ५४.

संधि-यत्- न्याः निम् २, ५: २.

संधि वत् द्राथी ७, १, ३३; लाथी ३, १, ३२.

संधि-वर्ण- न्यौ कौत् ७३, १.

संधि-विग्रह- धितक- कम् थप ३, १, १३.

संधि-विग्रह-वाना(न-आ)सन- संस्र- द्वैथीभाव- न्यात् विध ३, ३९.

d) वैप १६. e) नाप. (खोत्र). f) उप. संधि: <> संधितोऽयम् इति पाठे. g) = सपा. तै छ, ४, १, ११ संधिः, अस्ति > मा १५, ६ संधिना इति पाठे. h) = [अपत्यप्रमाण] कुट्टर- इति भाष्यम्. i) = परिधि- j) = साम-निवेद्य- k) = [प्रकरणतः] अधि-बोध्यः ? l) च संधिभिः > सपा. शंध ३, १३, ५ च संधिका इति, द्विथ २, १०, ७ मुसंधिभिः इति च पाठे. m) = द्विदिग- n) सपा. मे छ, १, १२ संधिः इति पाठे. o) न्यौ इति छार्त्. p) सप्र. द्विथ १, ७, ३० सन्धयोः इति पाठे. q) संधयोश्च बहिर्वाताद्यासनम् > नौथ २, १६ बहि.सन्धयाम् इति पाठे. r) मत्तो. क्व. s) = [प्रक- यतः] सन्ध-इय- t) = अन्तर्वेजी- [यो-] इति: प्र. वसं. (पा ५, ३, ११६) ।

सधि-वेला- पाग ४, ३, १६,
-लघो शाश्री २, १४, ९, काश्री
७, ५, ७, २५, ११, १५, इश्री,
-लायाम् काश्री १३, २, १०,
आज्यो १, ६, -लासु गोष्ट ४, ६,
१३, अण ५२, ९, १

साधिवेल- पा ४, ४, १६

साधिवेला-समीप-पम् गोष्ट
३, १०, १७

सधि-गत- तम् वा १४, ७,
-ते विध ९६, ८७

सधि पा(< ला) मन्- म शाश्री
९, २, १, २, दुसू, -मानि निस्
१०, २ १६, -म्णाम् निस् ३,
३ ३८

सधि सामान्य- -यात् वा १,
२०

सधि स्तोत्र- -तम् वीश्री १७,
५ १, दिश्री ९, ७, ४१^०

संधिस्तोत्रोप- -यान् निस्
१०, ७ १५, -वेपु निह ४,
१० १५

सधि स्थान- नेपु शैशि ६०,
वाशि २, ३४

सध्य, ध्या^०- पाठमो २, ३ २०,
-प्य वीश्री २०, १ १४, अत्रा

५, ४१, अत, -ध्यम् वीश्री २०,
१ ७, अत्रा ३ ११, ११, ६,
-ध्यवा अण ३६, ६, २, -ध्यमो

वैश्री २, २ ९, आश्रित, हिध १,
७, ३०^०, -ध्या गोष्ट १, ५, ११,
अण ५०, १, १४, -ध्या हाष्ट

४, १, ३, १ अण ४३, २, २६,
अत्रा ५, ४०, -ध्याति अत्रा

१३, २८, -ध्याम् आष्ट ३ ७, ३,

कीष्ट २, ६, ३, शांष्ट, -ध्यायाम्
कीष्ट ३, ९, १५, अण ६१, १,
४४, ४, अण १२१, -ध्यासु
वाष्ट ४, २, २, अण ६१, १, ९,
१२, ४, ४, अण १३, १०, -ध्यवे
वैष्ट १, ३, १२, वीसू १४१,
३७, अत ३, ४, ८, वीच २, ३७,
-ध्येषु अत्रा १३ ३९, -ध्यौ
वीच ३, ३७

सध्य- पा ४, ३, १६,
-ध्यै अण ६५, ३, ३

सध्य पद^०- वी शौच १, १
सध्य यकार-पूर्व^०- -र्व.

अत्रा २, ५६
सध्य वचन- तम् अत्रा

१४ ६०.
सन्ध्या कार्य- -र्व आश्रित

२, ७, १-२
सध्या-काल- ल अण ४१, ३,
४, १, -ले अण ४१, ३,
३, ४, -लेपु अण ९०

सध्या(ध्या आ)गम- मात्
वैष्ट २, ८ ७, ६, ८ ७

सध्या त्रय- -यम् अत्र २,
१, १५

सध्या-दण्ड परिवेप- -या
अण ६४, ७, ८

सध्या(ध्या आ)दि- शीनाम्
अत्र ३, ५ १

सध्यादि-रुन्त- -रुनि
अत्र २, १, ३

सध्या द्वय- -ये अत्र २, १, ११

सध्याहयो(स-उ)पासन-
-नम् निप २८, २

सध्या-नियत निस्वन- -ना

अण ६४, १, १
सध्या नि स्वन- -यम् अत्र
१, १०

सध्या-रात्रि- श्यो निप
७७, ८

सध्या-रूप- पर्य वत्र २,
१, १६^०, -वे आश्रित २ ७ ४

५, वीष्ट ४ ११, १, -वेन आश्रित
२, ७, ५ २

सध्या-त्रयु- -यो अण ५८^०,
४, १३

सध्या विटत- -त आठ^०,
११, ३

सध्या वेला- -लाम् वा ५०,
७, ३, ४

सध्या-स्तनित- -ते वाप
१३ ९^०.

सध्या(ध्या-अ)समित- -ते
वैष्ट २, १२ ३^०

सध्या स्थाविन्- -वी आ
४४, २, ४

सध्या हीन- -न, ४२२, १, १
सध्या(ध्या-उ)वस्थान- -नम्

वाष्ट ४, १, २४
सध्या(ध्या-उ)पासन-

-नम् वैष्ट ६, १५, १, वीष्ट ६,
४, १६, निप ७१ ७७

सध्यापासन-क- -कम्
अत्र २, १, १

सध्यापासन काल- -राष्ट
वीष्ट २, ४, ५.

सध्यापासन अत्र- -राष्ट
निप ८२, २५

सध्यापासन शिधि-
-धिम् अण ४१, १, १ वीष्ट २

०) पागे इ २५२७ ०।

०) विप, माप (काल विवेप-) [सप्ततुलीयमान] रुन्त भवार्थे वत् इ ।

८) < सध् । ९) पागे इ २५२७ मा इ । ८) = सदिहा-वाठ, पदपाठ- । ९) वत् > वत् ।

९) पात् दलि कौले । १०) स्वन्ति इति आ पाप १३, १ ५ पागे ।

४,१.
संघोपासन-प्रिहीन- ले
वैषु ६,८:५.

संघोपासन-समिद्धोम-
औ वैष १,२,१.

संघोपासन-हीन- नः
वैष २,१०,५.

संघोपासन(न-शा)दि-
निरपमन्द- भांणि वैषु ६,
४:४.

२संघो(प्या-उ)पासन- नः
आशिर २,६,८:४९२.

संघ(वि-प्र)क्षर- पात्रवा ४, १;
६; १०; -रम् वाय १३, ४६;

दुप्रा १, ४५; ४, ४८; -राणाम्
आधौ १,५, ९; दाधौ १,२, ४;

धीच ३, ४०; धाणि; -राणि
माधौ ५,१,१, ११; अय ४७,

१, ७; ३,४; ६; प्रायः; -रे दुप्रा
४,५८; -रेषु नाशि २, २,२.

संघक्षर-द्विदोषत्व- न्वे
पावा ५,३,८३.

संघक्षर-व्यञ्जन-निवृत्त-
(ति-प्र)धे- अंम् पावा १,
१,३.

संघचरा(र-प्र)धे- अंम्
पावा ६,१,८.

संघक्षरो(र-उ)य(पा>
ध- न्वे नाशि २,५,६.

संघ(वि-अ)न्त- न्तयोः जीशु
१५:४.

संघ(वि-अ)न्तराल- ले वैश्री
१९,१६:८; आपशु ११, ७,
दिशु ४,९.

संघ(वि-आ)च- न्यः प्रह २,

३,१०.
संघीयमान,ना- न्योः वैश्री २२:

४; -मात्रम् प्रसा ३, २४;
-नाम् पैताधौ ३०, ६; -ने

अप्राय ३,१५.
संघे(य>)या- न्या वीधौ २४,
२०:७.

स-दिग,ता- पावा ६, १, १४४;
-सः काधौ ११,१, ८; वैश्री १,
१:२७; घृदे; -वम् काधौ ५,

६,१९××; -ताः अय ५२,
१०, ४; घृदे ६, ६४; -ताणि

शु २७, ३; -ते काधौ १७,
१, १०; -तेः वैश्रीका १९९;

-ती विष ४९,१; अय.
सहितो(त-अर>)रु- पावा ४,
१,७०.

सं√घाय् (पत्नी),मय् (धावन्तु)अप्र
११,१५.

संघावत्- न्वसु वीशु ४७, ३८.

सं√घाय् (दुसौ), संघावेरत् प्राधौ
११,४,१२; लाधौ ४,४,११.

संघाव्य कौशु १६, १; ३४, १६;
४१, १९××.

१संघि- प्रम्. सं√घा द.
२संघि- (>सांघ- पा.) वाय ४,
१,११२.

√संघि, संघित- सं√घा द.
सं√घु, संघावते वैश्रीका १०२.

संघातन- न्यम् प्रसा ६, १७.
संघति- न्तिः वैशि २५०; २५३.

संघ,ध्या- प्रम्. सं√घा द.
संघ्यान्- नः आधौ ४,१२,२५०.

सञ्ज- √षद् द.
संनञ्- न्वम् आपधौ १, ३, १५;

माधौ १,३, १३; वाधौ १, २,
१, १७; -तात् वाधौ १५,

१३, ३; माधौ ११, १३, ५;
वैश्री १३, १५:१०.

संनञ्-माञ्- न्प्रः वीधौ २४, २५:
१.

सं√नद् > संनादपत्- न्यत् तु
१७,५

सं-नञ्- सं√नद् द.
सं√नम्, संनमि आपधौ १,९,१६;

१७××; माधौ; संनमतः द्विधौ
५,२,३५; ९, २, ३६; णसम्

(नमागति)० अय ३,८; ६,९४;
सम्...नमन्त आपधौ १, १४,

१५; णसम्(नमन्त) आधौ ६,४,
१०; प्राधौ ६, ४, ४; लाधौ

२, १२, ५; वैताधौ; णसम्...
ममन्ताम् आपधौ ४, ११,

६; माधौ ४, १७, ३; द्विधौ
६,३, १; णसम्...संनमन्ताम्

माधौ १,४,२,१३; वाधौ १, १,
३, १८; णसमनमत् प्राधौ

२०,१२,८३; वीधौ १५, ३८:
४२; णसमनमन्त वीधौ १४,

१६:१०; पाए १,५,९, आशिर;
समनमत् कौशु ५, ८५; संनमेत्

द्विधौ १६, २,१४; संनमेत् घृदे
२,१०१.

संनमेरत् माधौ ८, १५, ७.
संनमवति आपधौ १, १, ११;

वीधौ; संनमवाति काधौ ४,
२, १५; संनमेत् वाधौ १, १,
१,६८; आए; या २,१.

संनत्,न- न्वम् आपधौ ७,३,४०;
१५, २,१४; माधौ ७, २, १०;

a) = संघा-विधि- १ उव, करणे श्च। b) वस. 1 c) = संघित- १ वैष १ द. 1 d) अय. 1

e) = सपा. वै ३, १६, ४ अय. 1 है ४, ४, १२, ५ संघुवाताः इति पाठे. 1 f) नाव. (संघतायुष्मद्गुह-

नल- १ मुष्टि-) १ मलो. वस. 1 g) पाठे. वैष १ सुं...नमागति टि. द. 1 h) पाठे. दु १९१५ १ द. 1

वैधौ, -ता वैधौ ४, १० १०,
 हिप्रौ १, ६, ९०, -ताम् वैधौ
 २३, ३: १३, -तामि आपधौ
 २२, १, ४, वैधौ, -ताम्
 माधौ २, २, १२, माधौ १, २,
 ४, १९, -तै हिय १, ४, ५, ८, ७
 सनत्त-र(>)रा- -ता आपधौ
 २, ३, २, वीधौ २४, २४ ८,
 आपधु ४ ६, हिप्रु २, ६
 सनत्त म(ध्व>)ध्वा- -ध्वाम्
 वाधौ १, ३, १, १
 स नति- -नैव आपधौ ४, ११,
 ६, भाधौ, -विभि^० वीधू ५,
 ८, ६८, ३७, ७२, ३७, अन्,
 -त्या अन् ३७, १८, १^०, -वै
 आपधौ २०, १, ५१
 सानत्य- -त्यम् अन् ३९
 सनति-अहाय्याहति सावित्री-
 कृष्णाग्नी- -ण्ड्य अन् ३७ ३, १
 सनति होम- -मात् आपधौ
 २०, १२, ८, वीधौ १५, ३८ ३
 सनमन- -नम् हिप्रु ६, १४, -नात्
 माधौ १२, ५, १, -नै काध
 २७६ १२
 सनमन-अनेम् आपधौ ७, ३,
 १०, ११, ५, ३, वैधौ १४,
 ३-२०.
 स नममान- -न या ७, १४
 सनमवत्- -वत् आपधौ १६
 ३३, ६, वैधौ १८, २१ २६
 सनमपती- -व्य आपधौ ८,
 १८, ५६.
 स नमव्य वैधौ १८, १४ ४३
 सनम्य वैधौ ९, १ १२x४

स नाम- -म आपधु १९, ४,
 -मात् हिधौ ७, ४, ४३, -मात्
 द्राधौ ६, ३, ३, लाधौ २, १०, २४
 स-नामवत्- -वत् गोए ४ ६, १०
 सं नय- -वत्- -प्रह सं/नी द्र
 सं/नह, सनहते माय १, ११, ६,
 सनहति काधौ २ ७, १,
 आपधौ १, ४, १२, ६, २x४,
 काठधौ, वीधौ १, १२ २०^०,
 सनहत्त माधौ १, ७, ३, ५,
 संसन्धे^० आपधौ १, ५, ५, वीधौ
 १, १२ २१, माधौ १, ५ १,
 माधौ १, २, ५, १२, वाधौ १ ३,
 २, २१, हिधौ १, २, ४७, वापम
 १, २, ७, काए २५ ४, संसन्धे^०
 बहामि^० आपधौ १०, ९, १६,
 वीधौ ६, ५ १०, माधौ १०,
 ६, १२, माधौ २, १, २, ७^०, वैधौ
 १२, ९ १, हिधौ ७, १, ५१,
 माय १, ११, ६^०, वाध १४, २^०,
 वीधू ७६, ७, अन् १४, २,
 संसन्धे वाधौ २ ६, २६, आपधौ
 २, ३, ११, वीधौ, सनहत्तव्यम्
 अन् ११, १०^०, सनहत्त वीधौ
 २०, २ १३, ३१, ३३x४, वाधौ,
 सनहत्तन् द्राधौ १०, २, २, लाधौ
 ३, १०, ३
 समनास्तीत् या ४ ११
 सनहते वाधौ १, ३, २, २१^०,
 सनहत्ते आपधौ २१, १८, ६
 सनाहपति काधौ १३, ३, १२,
 वीधू १६ ७, सनाहपेत् द्राधौ
 १०, २, १, लाधौ ३, १०, १,
 वाए ३ १२, १

स नह, दा- -ह काधौ १७, १५^०
 १, आपधौ २२, १२, ४, वा
 २, ५x४, तैमा १२, ३^०,
 -हम् काधौ ८, ७, ५, आपधौ
 ८, १, ११, वीधौ ५ १ ६^०x४,
 माधौ १, ७, १, १x४, वैधौ ८ ३
 १३, वैताधौ ३४, १३, -हा हिधौ
 १, ७, २२, माय १, ११ ६^०,
 वाए १४, २^०, वाए ५ ९, १९
 -हा आधौ १ ७, ४, आपधौ
 २०, ५, १३^०, वाधौ ३, २,
 ५, ४६, माध, २१^०, १०, ३०
 -हानाम् वाधुधौ ३, ७९ १, ३
 -हाम वैताधौ ३४, १४, -है
 आधिय १, १, ५१
 सनहत्त सारधि-> -धि-
 -विन् आपधौ २०, ५, १३
 रसनहत्त सारधि- -धि आपधौ
 २२, १२, ८, -धीनाम् वाधुधौ
 ३, ७९ २
 सनहत्त(द-ह)भादहि^० -हिधि
 अन् ३, १०
 सनहत्त- -नम् काधौ २, ७, ११
 आपधौ १, ४, १२^०, २ १, १x४,
 वीधौ, -मात् वाध, २१ -ने
 वीधौ २०, २ १०, १० ८
 सनहत्तो- -नी आपधौ १,
 ५ ५ माधौ १, ५, १.
 सनहत्त हरण- -हे मीत् १२, १
 ४५
 स नह काधौ ५, १, १९, आपधौ
 सनहत्त(न>)ना- -नाम् वैताधौ
 २ ६
 सनाह^०- पाय ५, १, १०-१, -हम्

a) वस । b) = मन्त्र-विरोध (= वी ४, ३९ १) । c) ताज्यवेत्तव्ये वय प्र । d) 'वन्तो->
 -त्या इति शोध । e) एष 'वि<>' श्चे इति पठि । f) = एषा वै १, १, १०, ११ वी १४ १,
 ४२ सनहत्त इति, बहत् १, १ सनहत्त इति च पठि । g) पठि वैप १ सुम् नहामि वै ३ ५६, १^० इति ।
 h) पठि वैप १, १६ ३७ ईद । i) = अन्व- । उप वर्गणि कृत् ।

शांश्री १५, १८, १^९; शुभ ३, ११५.

सांवाहिक- पा ५, १, १०१.

सं-नाम-^१, मयत्- सं-नह् इ.

सं-नाय्य, सं-नाय्य- सं-नी इ.

सं-नि-कृत् > सं-नि-कृत्-^२-^३ यं आश्री

१, २, ९; या १, १७; ऋत ३, १,

७; पा १, ४, १०९; पावा १, ४,

१०९^४; -^५ म् मीस् १, १, २७;

-^६ क्वात् ४२: ७.

सं-नि-कृत्-कर्म-^७-^८ मेण क्वात् २, ८, ८.

सं-नि-कृत्-^९-^{१०} म् क्वात् २, ५, ४; ७;

-^{११} एस्व शुभ्रा १, १४४; -^{१२} ऐ वैश्री

२०, ७: २; आश्रित ३, १०, ४:

२७.

सं-नि-कृत्-विप्रकृत्-^{१३}-^{१४} योः शुभा

१, १४४.

सं-नि-कृत्-^{१५} श्रौट १, १६, ६; माप.

सं-नि-^{१६} गच्छ, सं-नि-गच्छतः श्रमा

११, ४७; सं-नि-गच्छेयुः वीश्री

२५, ३: ५; २६, ९: २०.

सं-नि-^{१७} गद् > सं-नि-गद् हिश्री ५,

२, ४९.

सं-नि-^{१८} घृत् > सं-नि-घृत् श्रां १,

२४, ३; क्वात् ३४, ६; वात् २, ८.

सं-नि-^{१९} घा, सं-नि-घोषेत् वीश्री १०,

३१: ४; वैश्री १८, १७: २०.

सं-नि-धान-^{२०} नात् मीस् ३, ५, ३०;

५, ३, ३९×४; -^{२१} ने आश्रित ३,

१, २: २; वीश्री १, ९: १११^१; वीश

६, ४^२; मीस् १०, ३, १: ४१.

सं-नि-धान-विशेष-^{२२} नात् मीस्

३, ८, ३६.

सं-नि-धान-शास्त्र-^{२३} स्त्रात् मीस्

१, ३, १४.

सं-नि-घाय श्रापश्री ७, २५, ७; वीश्री.

सं-नि-धि-^{२४} पायन १८०; पावाग ५,

१, १२४; -^{२५} धिः पावा १, ४,

१०९; -^{२६} धेः काश्री ३, २, १६;

७, १, २९×४; -^{२७} धौ आश्री १,

९, ५; आश्रित २, ४, ७: ११;

३, १०, ४: ३०; हिट्.

सं-नि-ध-^{२८} पायन १८०;

पावा ५, १, १२४; -^{२९} ध्यम् श्राप

४१, ४, १; शंघ २०; १०३.

सं-नि-धि-विशेष-^{३०} धान्याम्

काश्री १०, ९, २२.

सं-नि-धि-^{३१} म्पह्वन-^{३२} नाभ्याम्

काश्री ४, ४, ३.

सं-नि-हित, ना-^{३३} नाः माप १, २२,

२०; मीश्र २, १०, ३९; -^{३४} तानि

श्रौट १, २: १६१^१; -^{३५} तैश्च १,

१९: ३७; वाघ १३, ५४; श्राप

२, ५, ५; ९; विष.

सं-नि-हित-पानीय-^{३६} यन् विष

६३, १०.

सं-नि-^{३७} नी > सं-नि-नीय श्राश्री ४,

१६, ६; १८, १०: १९, ३; श्रां

सं-नि-^{३८} पत् (गती), सं-नि-पत्ति निस्

१, १३: ९; सं-नि-पत्तः निस् १,

१२: १४; २३×४; आत् १, ७,

१५; सं-नि-पतेत् वीश २, १०,

५८; श्रमा १५, १९; सं-नि-पतेत्

आपश्री १, ३, २३; हिश्री १५,

१, ७३; सं-नि-पतेयुः वीश्री १३,

२०, २; वीश्री २०, ३: २१; २४;

२२, १: ३९; माश्री.

सं-नि-पातयत्^{३९} वात् १६, १^०;

सं-नि-पातयेत् आपश्री २४, २, १;

३, १४; वीश्री २२, ३: १६;

माश्री; माप १, १४, १६^०.

सं-नि-पठित, ना-^{४०} तानाम् वीश्री

२५, १७: १४; -^{४१} तानि हिश्री

३, २, २९; माप १, १२: ८; -^{४२} ते

वीश्री २४, ३०: २; -^{४३} तेषु

मयाय ५, ५.

सं-नि-पाय श्राप ६३, १, ५.

सं-नि-पात्-^{४४} पाग ५, १, १०१^०; -^{४५} तः

श्राप ७०^३, ११, २६; श्राप २,

१, १७^३; २०; हिट् २, १, १६;

१९; वृदे २, १३३; कौश्रि १८;

मीस् ५, २, २३; -^{४६} वात् पावा ५,

१, ३८^०; मीस् ६, ६, ९; -^{४७} ते आश्री

८, ६, १०; शाश्री १, १६, १७;

वीश्री; -^{४८} तेन आश्री ७, २, १५.

सं-नि-पातिक-^{४९} पा ५, १, १०१^०;

पावा ५, १, ३८; -^{५०} क्त्वा काश्री

२५, ११, १७; १४, ३; मीश्र ४, ५,

१३; -^{५१} कानि काश्री २५, ५, १३;

-^{५२} के काश्री ८, ४, १९; शाश्री ४,

८, १६; श्राप ४, १, ३.

सं-नि-पात्-प्रधानत्व-^{५३} नात्

शाश्री ३, २०, १७.

सं-नि-पात्-कृत्तन-^{५४} नाः पावा १,

१, ३९; -^{५५} मस्य पावा ७, ३,

११९.

सं-नि-पात्(त-^{५६} ना)मक-^{५७} नात्

श्राप ६८, १, ४८.

सं-नि-पावन-^{५८} म् शाश्री १, २, २९;

१३, ५, १.

सं-नि-पाति(त् >) ना-^{५९} तानु हिश्री

११, ५, ६.

सं-नि-पातिन्-^{६०} ति ल्-^{६१} नात्

मीश्र ११, ४, ५४; १२, १, १८; ३,

२९.

सं-नि-पात्य काश्री १६, ८, १३; वाप

सा(<सं) नि-पातिन्-^{६२} ति ल्-^{६३} नात्

काश्री ७, ९, ११; ८, ३,

a) सं-नि-पाते इति श्राप्य. b) परस्परं पाठे. c) इ. पायन. d) श्रे इति पाठः! यति.

शेषः (तु. हिट् २, १, १६) e) माप. (जर्-). f) पाठे. इ ५९७ ८ द. ।

२९, ५, २०, ८१०.
 सा(⟨स)नि पाठ्य- व्य काश्री १,
 ३, ५
 स नि√भा>सनि भ- भै अण
 ६८, १, २१
 सं नि√यम् >सनि यम- मात्
 मीष् १, १, २६
 सं नि√युञ्ज, सनि योजयेत् अण २३
 १२, १
 सनि-योग- -मात् पावा ४, १, ९१,
 ३, १५, ५, -मेन पावा १, २, १८
 सनियोग-वचन- -मात् पावा ७,
 १, ३
 सनि यो(ज्य)>ज्या- -ज्या वीष
 २, २, ६२
 स नि√रुष >सनि रोष- -श सध
 ३३०
 स नि√वप, सनि वपति आध्री
 १६, १५, ५ सनि वपत् वीथी
 १०, २१ १६, वीथी १८, १२
 २७, सनि वपन्ते वीथी ३, २, १,
 ५, ९, सनि वपन्ति वीथी ८ १७
 ३, १६ १ ७, ८, ५, सनि वपेत्
 वीथी २२ ४ १४, १७, सनि
 वपेत् वीषि ३ ५ २, सनि वपेरत्
 आध्री २२, २, १२ १४, वीथी
 २६, १२ ८, ५, ६, १, सनि व-
 पेयु माथी ३, ७ ७
 सनि-वपन- नम् द्विथी १६, १, ३६,
 सनि वपन्ती(य) >या- वा
 शीथी १ २२, ६
 सनि वपयत्- -वपयत् वीथी २३,
 १ ९

सनि-वप- -व वीथी १५ १७
 १, १७, २३ २, ५, -वम्
 आपथ २, १२ १०, द्विथ २
 ४, ४६, मीष् ६, ६, ३२, १०,
 ६, ४९, -पात् वीथी १७,
 २३ २, -ये वीथी २३, ९ ९,
 -वेन वीथी २२, ४ १५, १८,
 सन्नु(नि-उ)स- सा आध्री २२,
 २, १५, -सानि वीथी २६, १२
 ११, -सौ आध्री १६, १५, ७
 सन्नु(नि-उ)प्य आध्री १६, १५,
 ६, १, २६, ९, वाधुथी
 सं नि√विश >सनि विदय निम्
 १०, ९ २३
 सं नि विष्ट- -ष्टी अण १७
 सं-नि√वृ(प्रतिवाते)>सनि-वारण-
 -याव निम् ७, ८ ११
 स नि√वृत् >सनि वर्तयत्
 वीथी १, ७, ५, ४, ५
 स नि√पद् >सनि पय अण ४०, ६,
 ६, १
 सं नि√पिञ्च्, सनि पिञ्चति वीथी
 १६, ४० २२, आधि १,
 ३, ३ ८, वीष् २ ४, ७
 सं निप्√कृष् >सनिष्-कृष् माथी
 २ १, १, ३८
 स निप्√पद् >सनिप् पाठ्य आपथ
 १, २१, ९, वीष २, १, ४९ द्विथ
 स नि√हृन् >सनि हृन् अण १२, ४४
 सनि हित- स नि√भा द्र
 सं√नी सनयते वृदे २ २४, सनयति
 शीथी १५ १७, १५, आध्री १,
 १६, १, वीथी द्विथि ६ ५९,

सिम्(नय) आत् ३, ५, ९ अण
 २, ६, ५४, सनयेत् काश्री ४ २,
 ४५ आध्री १ १४ ८, वीथी,
 वैष् ५ ४ ३३
 सिम् (नयि) शीथी ४ ११
 ६, काश्री १०, ८, १२, छान १,
 ५०५ शुभ्रा
 सिम् निनीयात्, सिम्
 (निनीयात्) आण १ १, २,
 आधि १, ५ १ २, पाठ २५
 १, वीष् १, १, १५
 सिम् (नेव) कौष् ५५ २०,
 सिम् नयेत् आथी २ ९, १०,
 आध्री ६ ३०, ८, वीथी
 स-नय- -न कण ३, १०, १४
 स-नयत्- -यत् आथी १ १, ११,
 शीथी १, ३, १६ काथी, -वम्
 वीथी ३, २ २०, द्विथी ६, १,
 ३३, आधि ३, ४, २ ११,
 वीष् ३, १, १२६, आपथ २
 १९, ५, द्विथ २ ५ ७७
 सनयत् यञ- -के मीष् ६ ४, ४२
 स नयन- -नम् वीथी १, २, २, १७
 स नयितुम् आध्री १, ६, ८, १
 स-न्याय्य माथी ५ १, ७ ३७
 स नाय्य- (> १ सनाय्य- पा)
 पाण ५ ४, ३८
 स-नीत- सिम् आध्री १, ११,
 ३, द्विथी १, २, २२, ४, ३
 -सात् गोष्ठ ४, १, १४, ३, ८
 स नीय माथी १ ७ ६, ४६, ५, ५, ५
 स-नेय- यम् द्विथी १ ४, ६
 २ सा(⟨य)नाय्य- पा ३ १ १२६,

a) वृ ६२५ क द । b) ईजान सनि इति पाठ १ । सभा सत्रा १, ५ ५ ७ ईजानस्य न्युवर्त्त इति, माथी १, ७ ८ ईजानस्य निवर्त्तयत् इति च पाठे । c) सत्र ष्यति << ष्येत् >> ष्यत् भवति इति पाठे । d) पाठे वैष १ सुम् सन्नु ही १४, १, ३४ द्वि द । e) = सपा १ ७, १०२, २ । आ ५ ४२, ४ प्रथ मास ४ ४ ४ ७ तत्रा २, ८, २, ६, ७ सुम् नेषि इति पाठे । f) साधाय्यम् इति सहर्या । g) वृ पाणम् । जय ष्यत् ३ ।

-व्यम् आधौ ३, १०, २३, काधौ
१, ३, १६, ३, ८, ९, ९, ३, काधौ,
-व्यवो माधौ ४, १४, ७, २२,
४, -व्यवय शाधौ १, ८, १२,
काधौ ४ ३, १४, वीधौ, -व्यवय
ऽ-व्यवय माधौ १, ४, ३, २०,
-व्यानाम् वीधौ २९ ४ १६,
-व्याभ्याम् द्विधौ २, २, ४३,
-व्ये प्राधौ ३, १३, १३, काधौ
४, २, १३, काधौ ३ २ ७,
वीधौ, -व्येन काधौ १३, २९, २,
काधौ २३, १२ ८, २२, काधौ ३
३ १३, वीधौ
सानाव्य कुम्भ- म्भत् वैध ५
४ ३२^०
सानाव्य कुम्भी- म्भौ काधौ
१, ६, १३ २, ११ ९, भाधौ १
६ १५, २ ११ ९, द्विधौ १ ८
३०, काधौ ३ ४, २ ११^०,
५, ७ १०, वीधौ १, ६ ५
३, ३, १२^०, द्विधौ ६ ५^०
सानाव्य-व्यर पशुपुरोडास-
शानाम् माधौ १ ३, २, २०
सानाव्य तण(>)वी- वीधौ
वीधौ १, ३ ११, -व्यौ वीधौ
१, ३ ७
सानाव्य दधि-कुम्भी- म्भौ
वीधौ १ १ ९ ९
सांवाव्य दुह- दुध वीधौ
२४, २३ ८, २४, १३ १
सानाव्य-वात्र- श्रणाम् वीधौ
२०, ४ ६, -प्राणि भाधौ १,
११, ४, १२, १, भाधौ
सानाव्य विधान- नम् आधौ
३ ५ ७ १०^०

सानाव्य भाव(>)ना^०- ना
दुवा ४, १५ ३^०
सानाव्य-वात्रिन्- वी द्विधौ
२. ७
सानाव्य-वत् काधौ ३, ११,
२१, काधौ ४ ४, ५, ५, ६, ७,
भाधौ ४, १५ १०, १८, ७
सानाव्य-व(>)वी- व्य
द्विधौ २२, २ २
सांवाव्य वस^०- वान् आधौ
१२, ६, १६
सानाव्य विकार- रा वीधौ
२४, १४ २४, -वात् काधौ
१९, ६, ४
सानाव्य सयोग- गात् गीत् ६
५, २१
सांवाव्य स्थान- ये वीधौ २२,
१० २०
सानाव्य(व्य अ)मीधौ-
विकार- नात् गीत् ५, ४, २५
सानाव्य(व्य अ)विधानी-
नीम् वीधौ १ ६ ५^०
सानाव्य(व्य अ)लम- म
काधौ २५ ५, ६
सानाव्य(व्य अ)वृत्- वृत्
वाधौ २, १३ ६, -वृत्ता
वाधौ २ १३ १, ७ ८
सानाव्यिन्- धिन द्विधौ १६,
८, २१^०
सानाव्य(व्य-उ)का- का काधौ
२९ ९, १५
सञ्जु सवन्ते वा १४, १५^०
सञ्जुद्, सनुदति वीत् ४२ ९
सन्नेय- सञ्जो द
सन्त्य(नि/ञ)स्र(दिपरे) सन्वसद्

आधौ २ ७, ११ ७^०, ८, ३, ७,
४ २९, वीधौ २ ४, १७, वाध
१०, ४^०, अथ १६ १
सन्वसति वीधौ ३ ३० १४,
वैधौ ९ ९ ८, सन्वसति वीधौ
५ १५ २, १६ ७ २
सन्त्य(नि अ)स्र- स्रत् आधौ २,
७, ११ ९ १० वीधौ २, १०, २७^०,
वैध २, ७, ६, -स्रानि द्विधौ ८,
५ २३, -स्ते आधौ ३, १०, ४
२७, ३३
सन्त्य(नि अ)स्र वैधौ १, ८ १२,
आधौ २ २ ५ १७^०xx, वैध
सन्त्या(नि-आ)स- स्रत् वीधौ २,
१०, ६, वैध २ ६, १, -सेन
विध २२ ११
सन्त्यास क्रम- मत् वैध २, ६,
१
सन्त्यास विधि- विध् आधौ
२, ७, ११ १, वीधौ २ १०, १
सन्त्यासिन्- सिन् वैध ३ ८,
१, ४, -सिनाम् वैध ५ ८ ८,
सन्त्यासिन्-वत् वीधौ ३, २, १४
संन्युत्- न्य स नि/वृद्
संन्युद्- न्यत् आधौ ८, ७, ३
साम्यत्- स्रद्
सं/स्रत्(वधा)^१ पाया म्हा पर
लमाये, सपति ऋ ४८, ९^०,
विध ३, ५^०, १४^०, सपेव
काधौ १०, २३, ७, १५ ८,
१७, वीधौ ३, १३ ११xx,
भाधौ, लमेव काधौ १०, २३, ८.
सप^०- प आधौ १ ५, १ १०^०, या
५, १६ ४^०, -वत् आधौ १, ५,
१ ८^०

a) परस्पर धमि । b) विध (गे) । c) तथा च्यविधानम् <> च्यविधानीम् इति धमि ।
d) वैध २ ३२ द । e) मलो क्त । f) न्नाकि इति षट् इ यदि शोध । g) धमि ४ २४ ६५ ४ द ।
h) = वत्- । i) वा ५ १६ पराष्ट ६ । j) धा अर्वावा धमि । k) धा परिवर्वावा धमि । l) वैध १ ६ ।

सप्तपत्र- नमः वाग्यौ ३, २४. १
 सप्तपत्र- पाप ६ ३, ८४
 सप्तपत्र पुच्छ- च्छेपु आपु ९,
 १०, हिम ३, २९.
 सप्तपत्र-पुच्छ-विशेष- य काशु
 ४, २, ५, ५, ४
 सप्तपत्र- शंख २३३
 सप्तपत्र- क वेज्यो २९
 सप्तपत्र- स हिमौ १६, ५, २२,
 २६, मेघ २९.
 सप्तपति- > सप्तो- वा ४, १,
 ३५, पाप ४, १, ११२, ६, ३,
 ८४, -प्रीति आपम १, १५, २,
 आमिष्ट २, ४, १ २०^{१६}, -प्रीति.
 आपम १, १६, ६, या ४, ६.
 -जीनाम् वृदे ८, ६३, -प्रीतिम्
 आपम १, १५, १, २, ४, ५, अम
 ३, १८, -न्याः या ४, ६
 सापत्र- वा ४, १, ११२
 सप्तपति हृ- > सप्तपिन्नी-
 नी आपम १, १६, ५^१
 सप्तपती वापन- नम् आपु
 ९, ८, श्रम २, १०, १४५
 सप्तपती स्वर्षा- र्षा वृदे ६, ५७
 सप्तपत्र (जी-अ) पनो (रक) >
 विका- का वृदे ८, ५७
 सप्तपति- तय आमिष्ट २, ५,
 ३ २५, वीष्ट ३, ७, १८
 सप्तपति- प्रम आपमौ ३ १४, २, ४,
 १६, १, माधौ ३, १३, १, १०
 ७, १, माधौ, हिम १, २७, ८^{१६},
 -प्रीतिम् आपमौ १, १९, ११, २,

५, १^१, वीष्टौ १, १२ १७^१ x x,
 भाधौ १, २१, ७, २, ५, २^१ x x,
 वैधौ, हिमौ १, ७, १४^१, अप
 ३३, १, ८९, -का प्रीतिमौ २,
 ११, ८^{१०}, ५, ७, ३, वाधौ
 ७, ६, ३^१, वापमौ ४, ७, २^१,
 वीष्टौ, वामिष्ट २, ५, ९ १३, जैष्ट
 २, ६ १०, कौष्ट ४, ४, वा
 १०, २७, -प्रीतिम् वाधौ १०,
 ५, ३, आपमौ ३, ५, ४, ७, ४,
 ६, ५, ७, २^१ x x, वीष्टौ, माधौ
 ४, १०, २^१, हिमौ ६, २, १७^१,
 माष्ट २, २२ १३^{१०}, -प्रीतिनाम्
 आपमौ ६, २०, २, वाधौ १, ५,
 ४, २१, हिमौ, -ले वीष्टौ २,
 ५: ५^१, वा ४, १, १४५,
 -वेष्टु कौष्ट ६५, २^१
 सप्तपत्र-तय-काम- स वज २,
 १८, ६, ७५, १२, २८
 सप्तपत्र श्रयण- ग कौष्ट ६, १०^१
 सप्तपत्र श्रयणी- श्री वीष्टौ ३,
 १८ ६, माधौ ४, १२, ९,
 माधौ १, ४, १, २३, वाधौ,
 -श्री आपमौ २, ४, २, वैश्री
 १५ २ १२, हिमौ १, ७, ४,
 कुवीष्ट १६ १४, ४८, १, अम २,
 १८९
 सप्तपत्र-श्रयण- जाय अम १, २९
 सप्तपत्र- अम अम २, १०, १६९,
 वृद ८, ६९, -ले वृदे ८, ६९
 सप्तपत्र-सुष्ट- र्ष्ट आपमौ ५,
 १३, ४, वीष्टौ २, १७ १८,

हिमौ ३, ४, १६
 सप्तपत्र-दम्भन- नम् शोधौ २,
 ११, ३, वीष्टौ १, १२, ३०, ३,
 ८ ११ x x, वाधौ १, ३, २, २०
 सप्तपत्र-दूषण- ग वाष्ट ५, २, ५
 सप्तपत्र-निर्घर्षण- नम् वृदे ८, १४
 सप्तपत्र वृद- वल माधौ १, ५, ४,
 १६, ५, २, १५, २७, -वाग् भाधौ
 ५, ८, ८, वाधौ १, ४, ३, १८
 सप्तपत्र-साह- ह माधौ १, ३,
 ५, ३, -हम् आपमौ २, ४, ८,
 वीष्टौ १, १२ ५, १४, माधौ
 सप्तपत्र-साही- ही वीष्टौ ४, ३
 ६, माधौ ७, ४, ९, माधौ १, ३,
 ५, ४-६, ७, ३, ३१, वाधौ, -हीम्
 वीष्टौ १, १२ ७, १०, १२
 सप्तपत्र सेना-पराजय- वाष्ट अम ५,
 २१.
 सप्तपत्र हन्- हृदम् आपमौ १६,
 ३०, १, मैत्री १८, २, ४१,
 हिमौ, -हा आपमौ ११, १२, २,
 वीष्टौ ६, २८ २८ x x, माधौ
 सप्तपत्रो- श्री आपुष्ट ९ १^१,
 आप १८ १, ७, -प्रीति आपमौ
 १६, ३३, १, वैश्री १८, १६
 ५५
 सप्तपत्री- क वैश्री १, ४ ४,
 आमिष्ट २, ७, १०: ५ वैष्ट १,
 ६, १, -कम् वीष्ट ३, ८, ३, -का
 काधौ ६, ६, २७, १९, १, २०,
 २६, ७, ३७, वीष्टौ, वैष्ट १, ७,
 १, २, -कात् हिमौ १०, ५, १६,

a) = ४ त । b) = ३ स- । c) ह पापम [१५६] । d) उप हस । e) ऋषीपत्रम् इति शोध (ह
 स्त्रतिनत्रिका ५ २२८) । f) वैष्ट १ द । g) शोध गान सप्तपत्र टि (परि) द । पापे वैष्ट १, १८५४ हृद ।
 h) एष्ट हस (वा ६, ३, ६३) । ३) सप्तपत्रिणी < > पत्रिणी (क १०, १५६, ५ वे २४, ५ वा) इति पापः ।
 ४) विष्ट, नाप (कर्मन्) । ५) = ऋष्टः । ६) पापे वैष्ट २, ३३ द्विपुत्रम् तैसा ३, ७, ६, १९ टि द ।
 ७) सप्तपत्रा इति पाठ इति शोध (ह तैसा २, ४, ६, १२) । ८) पापे वैष्ट १, १६५४ हृद । a) शोध
 १ २११६ हृद । b) पस उप भाप । g) पापे वैष्ट १ सप्तपत्र टि द । f) = वाग्यस्य-वेष्टः ।

जैश्री २५. ४. -कानाम् आसिष्ट
 ३, ७, ४ २, वीपि २, ३, ७,
 -कैम् कौम् ८८, १३, अण ४४,
 ४, ९
 स^०-पत्त-बुण्ण-समिध- मिधः
 अण २६, ३, २
 स^०-पञ्च, वा- -अम् वैष्ट ५, ६. १९,
 -श्राणम् वैष्ट ५, १२ ३, -त्रेणो
 शांश्री १७, ५, ७, १५, ५
 सपत्रा ✓ छ पा ५, ४, ६१.
 स^०-पञ्चा(त्र-श्र)प्र- प्रम् वैश्री १,
 ७: ६
 रस^०-पद्- -दा वीश्री २३, ३: ८.
 रस पद्- -दाष्ट, -दे याशि २, ५०
 स^० पदि- -पाग १, ३, ३७, ५, ४, १२८,
 -दि अण ७०, १०, २
 स^० प(प>)ना- -नाम् विप १, २९
 सपत्रिमिप- -य ह २३, ३
 रसपर- -पाग ३, १, २७
 ✓ सपर्य वा ३, १, २७, सपर्यति
 निप ३, ५१, सपर्यत वा ११,
 ११, सपर्यति अण १, ११,
 ११, सपर्यत वीश्री ६, १६
 १३१, आसिष्ट ३, ८, २ ५७,
 वीपि १, १५. ६, कौम् ७३,
 १५, सपर्वत् श्राणम् १, ८,
 ३, कौम् ५, २
 सपर्वत्- -वंत् वा ३, ४१
 सपर्वण- -णवा कौम् १, २६,
 -ण्णाम् कौम् ६, २७
 रस^० पर- -रे पावा १, ४, ५१

रिसपरम् माशि ११, १४
 स^०-परणु- -शुम् वीश्री ४, १ १३
 स^०-परिचाव्यो(स्य-उ)पचाव्य-
 -व्यम् द्वित्री १२, ८, १४.
 स^०-परिच्छद्- -दम् कण ३, ४, ५,
 अण ७०, १२, ३, -दा अण ७०,
 ७, ४
 स^० परिणत्क- -त्कम्^१ काश्री १, २,
 ४, १९^{१०}, द्वित्री १, ५, ७
 स^०-परिहृण्ण- -ण्ण वाघ ६, ४३,
 वीश्री १, १, ६
 स^० परिवार- -रम् अण ३६, १, ६,
 ११
 स^० परिश्रित्क- -त्कम्^० काश्री १८,
 ३, ६
 स^०-परिपत्क- -त्कम् गोष्ट ३, २, ४५
 ४, २७, जैष्ट १, १७. १६^{१०}
 स^० प(प>)र्णा- -र्णा कण १, ८, १०
 स^० पर्वांस- -स आश्री ७, २, १३
 स^० पर्वन्- -वं केज्यो २५
 स^०-पलाश, शा- -श्या श्राश्री ११,
 १, ७, लाश्री ४, १, ७, आष्ट,
 -शा श्राश्री १७, ३, १०, -शा
 आषत्री ५, ५, १०, वीश्री,
 -शाम् शाष्ट १, १३, ६^{१०}, -शाम्
 शाश्री ४, १७, ५ श्राश्री १, २,
 २३, लाश्री १, २, १७, आष्ट ४,
 ८, १५
 स^० पल्लव- -वम् वैष्ट २, २ २
 स^०-पवित्र, प्रा- -त्र जैष्ट १, १३
 १, -अम् जैष्ट १, ४ १, -प्रा

वीश्री ९, ६ १, -त्राणि द्विपि
 १७ १८, अण २१७, -त्राम्
 वीपि २, ५, ३, -त्राम् भाश्री १,
 १३, १, वैष्ट ४, ५ ८, -त्रायाम्
 काश्री २, ५, १०, १०, १, २०,
 -त्रे काठश्री ४०, -त्रेण आषत्री
 १, १६, १२, वैश्री ४, ३ ८, द्वित्री
 १, ४, ५८, आसिष्ट १, ६, १ १३,
 -त्रेषु वीपि २, १, १४, वीपि २, ३,
 २२, अण ४४, ३, ४, ४, ७, नाशि
 २, ३, ३, -त्रै आसिष्ट १, २, २,
 ३, द्विष्ट २, १८, ९.
 सपवित्र- -क कण २, १, ३
 सपवित्र पाणि- -नि आसिष्ट १,
 ६, ३: ४६.
 स^०-पशु- -श्या आश्री ३, १, १०,
 -शु वीश्री १४, २१ २४^{१०},
 -शुपु काश्री ५, ११, १९.
 स^०-पशु पुरोडाश- -शानाम् वीश्री
 २२, ११, १३
 स^०-पाणि- -ण्णा वीश्री १०, ९ ७,
 स^० पाव, प्रा- -त्र काश्री १०, ६,
 २३, -अम् काश्री १४, ४, १७,
 -प्रा काश्री २, २, ११, -त्राणि
 काश्री २५, १३, ४३
 स^० पाद, दा- -द वैशि ३९^{१०}, -दम्
 श्राश्री ३, ४, ४, -दा श्राश्री २, ८,
 १०१, अण ७, ५६, -दा वैश्री
 १८, १६ ८०, आषष्ठा ११, ७,
 वीश्री १२ ७, द्विष्ट ४, ९, -दान्
 आषष्ठा ३, १४, द्विष्ट १, ५३,

a) = षस- । b) = षण्ण- । c) उप = पद पाठ- (इ उप वीश्री १३, २१ ४) । d) क्त ।
 पूर = रस- वा षस- वा । e) = रस- । f) वैशु अभा < स/ण्ण इति । g) = सर्प विरोप- ।
 h) = पूजा- । i) वैष १ द । j) सपरम् (स सपर्यं टि) इति वा उपराम् (इ सपर नाशि २, ६, १०)
 इति वा समाव्येते । k) उप द्वस । l) सपर वैश्री ४, ४ २ मरीगद् सदिक्त् इति पाणे । m) ण्णकम्
 इति पाठ २ इ द्विशी । n) निप (२वेर-) उप = इतिहास उपरणादि- । o) वा निवि । p) ष्कम्
 इति पाठ २ यनि शोध (इ गोष्ट) । q) इ Oat टि । सपर वीष्ट १, ८, १९ प्लार्याद् इति पाणे । r) वर ।
 s) उप = पादमादा- ।

-ही आम्हा ३,१३; हिंश १,५२
 सपादक-कः काश्री ७,२,३०.
 स-पाद-वाल-शीर्ष-चर्मन्-र्म
 हिवि ५:७^b; -र्मणा हिवि ७:१०.
 स-पायस-साम्याम् गोष्ठ ४,७,
 २७.
 स-पार्थिव-वः अथ ६४,४,८.
 स-पार्वण-वम् वेणो ३७.
 स-पार्थी(क्ष-भ)प्र-मैः वाश्री
 १,३,२,१३.
 स-पार्ष्णीक-वम् वीष्ट ३,८,२१.
 स-पाश-वाम् भाष्ट २, १८ : ३;
 २१ : २.
 स-पिञ्जल-वः कप्र १,२,३.
 स-पिण्ड-पाग ६,३,८४^c; -ण्डः
 आम्निष्ट २, ४, ७ : २; वीष्टि २,
 १२, ५; वैष्ट; -ण्डम् वीष्ट २,
 ८, ४; -ण्डस्य शंघ ३६२;
 -ण्डाः आम्निष्ट २,४,७ : २; ७;
 वैष्ट ५, २ : १३; गोवि १, २,
 ३७; वाघ १७, ८१; शंघ ४२;
 गोष १५, १३; -ण्डम् आम्निष्ट
 २,४,७ : १७; वीष्ट १,५, ९५;
 -ण्डानाम् आम्निष्ट ३,७,४ : ३;
 वीष्टि २,३, ७^d; वैष्ट ६, ४ : १;
 ७,५ : १; वाघ ४,३४,२३,१४;
 विघ २२,१; गोष १४,१; -ण्डे
 आम्निष्ट ३,१२, १ : १०; पा ४,
 १, १६५; -ण्डेन विघ १५,३;
 -ण्डेषु आष्ट ४,४,१८; वाघ ४,
 १६; वीष्ट १, ५, ९०; ९१; विघ
 २२,२१,२२; -ण्डैः आम्निष्ट २,
 ४, ७ : २०; ३, १२, १ : २८;

वैष्ट ३,२ : २; २२ : १३; ४, ८;
 १२; गोष १४, ३२.
 सपिण्डी-ण्डी भाष्ट ३,
 १७ : ११.
 सपिण्डी-श्राव-वम्
 आम्निष्ट ३,२, १ : ८.
 सापिण्ड्य-ण्ड्यम् शंघ २९१.
 सपिण्ड-ता-वः वैष्ट ६, ४ : २;
 शंघ ३६१; वीष्ट १, ५, ९१;
 विघ २२, ५; -ताम् कप्र २, ७,
 ६; ३, ५, १२.
 सपिण्ड-व-वम् वाघ ४, १७.
 सपिण्ड(एड-भ)भाव-वै वीष्ट १,
 ५, ९८.
 सपिण्डी-करण-वम् वाष्ट ४, ३,
 १; ८; ५, ९, १; आम्निष्ट; -णात्
 वैष्ट ४, ७ : ९; ७, ७ : ८; कप्र ३,
 ५, १३; अथ ४४, १, ७; शंघ
 २३२; विघ २०, ३३; -मे आम्निष्ट
 ३, ३, १ : १५; २ : १६; वैष्ट ७,
 ८ : ८.
 सपिण्डीकरण-वत् वैष्ट ४, ३ :
 १६; ५, १३ : ९.
 सपिण्डीकरण-श्राव-वम्
 आम्निष्ट ३, ३, १ : ६; -वै आम्निष्ट
 ३, ३, २ : १६; वैष्ट ७, ८ : १.
 सपिण्डीकरण-स्थान-वै वीष्ट
 ३, ९, १.
 स-पिण्ड-व-वम्
 (> ण्डि-भक-पा.) पाग ४, १,
 ५४.
 स-पितृक-वम् आम्निष्ट २, ५, १०;
 आष्ट ३, ९, १; वाघ ४१, २२.

स-पितृ राज-वम् आम्निष्ट २,
 ५, १०^f.
 स-पितृ-राजन्य-वम् आम्निष्ट
 ३, ९, ११^f.
 स-पितृ(द-व)-वम् आम्निष्ट २,
 ३, २; अग्राम ६, ९.
 स-पिलक-वम् वीष्टी १४, २९ :
 २३.
 स-पीत-परुद-श्याम-वम्
 ५८, १, १०.
 स-पीति-वम् आम्निष्ट १३,
 २६, १०; वीष्टी १३, २१ : ३;
 गाश्री ५, २, ६, १९; १७, हिथी;
 -तिम् वा ९, ४३^g.
 स-पुत्र, प्रा-वम् वीष्ट १, ७, ११^f;
 भाष्ट २, ५ : ११^f; वीष्ट ५, १२;
 ५३; -प्रम् हिंश १, २३, १४^f;
 -व्रस्य कप्र ३, ५, १०; विघ ६,
 २९; कप्र २, ७, २३; वीष्ट ५,
 १०३; वाघ ३:७; -वाम् वीष्टी
 ६, ६, १२; गु ७, ५.
 स-पुत्र(वृष्ट)त्रिवा-वम् आम्निष्ट
 १, १६, २२.
 स-पुरस्तात्-स्तोम-वम् वीष्टी
 ७, ४, १४.
 स-पुर(वृष्ट)रा-वम् आम्निष्ट ३,
 १२.
 स-पुरीप, पा-वम् आम्निष्ट ३, ५,
 १ : २२; वीष्टि १, २ : ६; -पा
 काश्री १७, ७, ९; -पाः वैष्ट १,
 १७:१०; -पाग्या काश्री ८, २,
 २३; -वाम् वीष्टी २५, १४ :
 १५; २७:२४; -वै वीष्टी २५,

a) = वस- । b) सप्र. वीष्टि १, ४:२७ चर्म सशीर्षवालपादम् इति पाठे. । c) उग्र. वीष्टि १, ९ : १७ चर्मणा सशीर्षवालपादेन इति पाठे. । d) उग्र. = चर्म-दिन- । e) = ३४- । f) ड. पागन्. [१५६] ।
 प्र. ठठे. (पा ४, १, ५१) । h) व्यप. । i) उग्र. पम. । j) परस्परं पाठे. । क्वत्स इति आष्ट.
 मन्त्र-व्याख्या । k) वैष्ट १ द्र. । l) = सपुरपुर- इति भवत्सानी । m) उग्र. इति. । n) उग्र.
 = नगर- ।

२८-३, ५xx.

स-पुरीपप(द>)वा- -दा बाधौ
७, १२, १४, ८, १४, १६

स-पुस्य- -अम् काधौ २१, १, १४,
आपधौ २०, २५, २१, -या:
आपधौ २३, १३, १

स-पुरोडाश- -शेन आधौ ६, ५, २३.

स-पुरोनुवा(क्या>)क्य- -व्या
काधौ १३, २४, १८, -क्ये
काधौ १, २, १९, -क्येत्तु शाधौ
१, १, २२

स-पुरोहित- -त आ २१, ६, ७,
६३, ३, ७, वृदे ३, १४

स-पुरोहित प्रवर- -रा. आपधौ
२४, १०, १३, १५. हिधौ २१,
३, १६

स-पुष्य, ध्या- -व्याम् अप ३५, २,
३, -व्ये अप ७, १, ५, विष ९९,
१९

स-मूरप- -य आपधौ १४, २६, १

स-पूर्णपात्र विष्णुक(म>)मा-
-मा बाधौ २, १९, ८, १६,
२० १३, १९, २१, १४xx,
-मा बाधौ २३, १४ २४

स-पूर्वर्था- -वै. तैषा ५, १९, ८, २२,
-वैम् बाधौ ३, १२, १९, -वैर्य
पा ४, १, ३४, -वैरि पा ५, २,
८७, पावा ४, १, २४, ३, ४,
-वैर्या पा ८, १, २६, -वै
श्रमा ११, १५

स-पूर्व पद- -दाद पा ५, १, ११२,
पावा ५, १, १११

स-पृपदाज्य- -ज्यम् काधौ ६, २, ६

स-पृष्ट- -हे लुप २, १४: २०

स-पीन- -अम् हिप १, २२, १४.

सिस्रज्रेत- -अप ४८, ११६.

सप्तम्- -पाठ १, १५७, पाय ४, १,
१०, १६, -स आधौ १,
७, ७, १xx, शाधौ, वा ११,
२१.

-सस शाधौ ६, ९, ६,
काधौ १७, ३, १०, ५, ७, आपधौ,
-सभि काधौ ७, ३, २, १६,
४, ८, १७, ७, १, आपधौ,
-सभि ऽसभि काधौ ७, ३, १,
आपधौ १०, ७, ७, बाधौ,
-सभ्य. आपधौ १०, २२, १२,
बाधौ ८, १३ ८, आपधौ, -समु
बाधौ १७, १४, ४, १५, ९, काधौ,
-सनाम् आधौ २, २, १७, ४,
१५, ७, ५, १०, ४, ९, ५, १५,
आपधौ, पा ६, ४, १२५

सप्त- पा ५, १, ६१.

सप्तपत्नी- -वीन् आन्वि २,
७, २ २१.

सप्त- पा ४, १, ६६.

सप्त- -सामि वाधौ ३, १२ ८

सप्त-कपि- -नृपय आन्वि १, ५,
४. ४६, ६, ३ ३६, बाधौ,
अप ४८, ११२, १४४, निप
१, ५, ५, ६, वा १२, ३६, ३७,
-दिम्य बाधौ १, ५, २, ४८, १,
केट २, ८ २९, बाधौ ३, ९, २१,
-नृपीनाम् बाधौ १६, २६, ६,
बाधौ २, २, ८, माधौ, -नृपीन्

बाधौ ९, १२, ४, माधौ २, ४,
१, ३५, बाधौ

सप्तकरीण- -आनि वा १०,
२६, १४, १९

सप्तक- -क. क्रम १, ४, ९, १०,
३, २, ४, १०, ३, १५, २१,
लुप, -कम् विप १, १५, मध
३, ४, १९, ४६, -कपो क्रमा
१६, २२, -का. श्रम १, ४, ४, ३,
१६, श्रम ५ १७, श्रमा १६, १४,
-कान् वृदे ७, ५१, -कानाम्
क्रम ३, ४२, -कै वृदे ७, ११६,
-कौ श्रमा १६, २७.

सप्तकपाल- -व बाधौ ५, १, ११,
७, १, आपधौ २२, १८, ८, बाधौ,
-हम् आपधौ ८, ११, २२, १९,
१९, १२, बाधौ, -ला बाधौ
२४, १० ११, -लान् आपधौ
१७, १६, ४, बाधौ १०, ५१:
८xx, माधौ, -ले बाधौ ५, १,
६, ४४

सप्तकृत्वत्() आपधौ १२, ८, २,
बाधौ १५, १०-५, हिशी

सप्तकोण- -जम् अप २५, १, ८.

सप्तकोण-क- -कम् अप २५, १, ८.

सप्त-शीरा(०-अ)श्रि- -प्राप्त-
-स अन् ३६, ४, १.

सप्तशण- -शानाम् अम् ३.

सप्तशण- -शा बाधौ १३, २२-
१५

सप्तशव- -वम् आन्वि ३, ८, २:
५, बाधि १, १५-१६.

a) = ४स । b) विप (कपु-) । उप = १पुरीपप । c) = १स । d) उप. हस ।

e) वेप १६ । f) तु पागम् । g) व्यप । h) पामि वेप १, १५६ ०६ । i) पाठ । तु सप्त. हिप १,
२६, १४ सप्तपत्नी- १) परिमाणे क प्र उत्स (पावा ५, १, ५८) । k) क्य । l) रदिम-नाम् । m) सवा
तै ३, २, ५ ३ सप्तपीन् इति पामि । n) = [उपचारात्] रदिम- इन्द्रिय । स्तार्थे स प्र उत्स (पा ५, ४, ७) ।

o) स्तार्थे वा परिमाणे वा कद् प्र (पा ५, १, ५८) । p) वस । q) विप (लुप-) । कप > मलो कप > वस. ।

r) इ ११९८०६ ।

-दौ आप्तु ३, १३, द्वि १, ५२
 सपाद क- क काश्री ७, २, ३०.
 स^१-पाद-चाल-शीर्ष-चर्मन्-अं
 द्वि ५ ७^०, -र्मणा द्वि ७ १^०
 स^१-पायस-आभ्याम् गोष्ठ ४, ७,
 २७
 स^१ पार्थिव-च. अप ६४, ४, ८
 स^१ पार्वण^१- गम् वेज्यो ३७
 स^१-पार्श्वी(क्षि-प्र)- प्रै वाश्री
 १, ३, २, १३
 स^१-पार्थक-अम् बौध ३, ८, २१
 स^१-पाश-आम् भाष्ट २, १८ ३,
 २१ २
 स^१-पिञ्जल- ला कप्र १, २, ३
 स^१ पिण्ड-पाग ६, ३, ८४^१, -ण्ट
 आम् २, ४, ७ २, बौध २,
 १२, ५, वैष्ट, -ण्डम् बौध २,
 ८, ४, -ण्डस्य अय ३६२,
 -ण्डा आम् २, ४, ७ २, ७,
 वैष्ट ५, २ १३, बौध १, २,
 ३७, वाध १७, ८१, शप ४२,
 गौध १५, १३, -ण्डम् आम् २,
 ४, ७ १७, बौध १, ५, १५,
 -ण्डानाम् आम् ३, ७, ४ : ३,
 बौध २ ३, ७^२, वैष्ट ६, ४ : १,
 ७, ५ १, वाध ४, २४, २३, १४,
 विप २२, १, गौध १४ १, -ण्डे
 आम् ३, १२, १ : १०, पा ४,
 १, १६५, -ण्डेन विप १५ ३,
 -ण्डेण् आम् ४, ४, १८, वाध ४,
 १६, बौध १, ५, १०, ११, विप
 २२, २१, २२, -ण्डे आम् २,
 ४, ७ २०, ३, १२, १. २८,

वैष्ट ३, २ २, २२ १३, ४, ८,
 १२, गौध १४, ३२
 सपिण्डी^१- ष्ठी भाष्ट ३,
 १७ ११
 सपिण्डी-धाद-अम्
 आम् ३, ३, १० ८
 सापिण्ड्य-ण्ड्यम् शप २९१
 सपिण्ड-ता- ता वैष्ट ६, ४ : २,
 शंघ ३६१, बौध १, ५, ९१,
 विध २२, ५, -ताम् कप्र २, ७,
 ६, ३, ५, १२
 सपिण्ड-व्य-व्यम् वाध ४, १७
 सपिण्ड(एड-अ)भाव- वे बौध १
 ५, ९८
 सपिण्डी-करण- गम् शप ४, ३,
 १, ८, ५, ९, १, आम् २, -ण्ट
 वैष्ट ४, ७ ९, ७, ८, कप्र ३,
 ५, १३, अय ४४, १, ७, शंघ
 २३९, विध २०, २३, -णे आम् ३,
 ३, १ १५, २ १६, वैष्ट ७,
 ८ ८
 सपिण्डीकरण वत् वैष्ट ४, ३
 १६, ५, १३ : ६
 सपिण्डीकरण धाद- अम्
 आम् ३, ३, १ ६, -डे आम् ३,
 ३, २ १६, वैष्ट ७, ८ १
 सपिण्डीकरण स्थान- ने वैष्ट
 ३, ९, १
 सपिण्ड^२->सापिण्ड^३-
 (>ण्ड-भक-पा) पाग ४, २,
 ५४.
 स^१ पितृक-अम् आप्तु २, ५, १०,
 भाष्ट ३, ९, १, वाष्ट ४१, २३

स^१-पितृ राज^१- अत्स^१ आप्तु २,
 ५, १०^१
 स^१-पितृ-राजन्य^१- अत्स^१ भाष्ट
 ३ ९, ११^१
 स^१पितृ(द-व)^१- अत्स^१ आप्तु २,
 ३, २, अत्राय ६, ९
 स^१-पितृव^१-अम् बौधौ १४, १९
 २३
 स^१-पीत-पक्ष-श्याम^१- आ ला
 ५८, १, १०
 स^१ पीति^१- अत्स आप्तु १६
 २६, १०, बौधौ १३ ११ ३,
 माश्री ५, २, ६, १३, १७, द्विथी,
 -तिम् या २, ४३^१
 स^१-पुत्र,त्रा- अ गौध १, ७, २१^१,
 भाष्ट २, ५ ११^१, वृदे ५ ५३,
 ५३, -अम् द्विष्ट १ २३, १४^१,
 -अस्य कप्र ३, ५, १०, विप ६,
 २९, अत्र २, ७, २३, वृदे ५
 १०३, चाअ ३ ७, -अम् गौधौ
 ६, ६, १२, तु ७, ५
 स^१-पु(अक>)त्रिका- कावाम् पाग
 १, १६, २२.
 स^१-पुरस्तात् स्तोम- औ माश्री
 ७, ४, १४
 स^१ पु(र>)रा^१- अम् का ६८, ३,
 १२
 स^१-पुरीप,पा- अम् आम् ३, ५,
 १ २२, बौध १, २ ८, -रा
 काश्री १७, ७, ९, -या जेष्ट १,
 १७ १०, -याम् आश्री ८ ३,
 २३, -याम् बौधौ २५, १४
 १५, २७ ३४४, -ये बौधौ २५,

a) = यत्त- । b) सत्र बौध १, ४ २४ चर्म सशीर्षबालपादेन इति पाठे । c) अय बौध १, ९
 १७ चर्मणा सशीर्षबालपादेन इति पाठे । d) उप = पर-दिन- । e) = ३स- । f) तु पागम् [१५६] ।
 प्र उस (पा ४, १, ४१) । h) व्यप, । i) उप पय । j) पररत्त पाठे । अत्र इति आम्
 मन्त्र-व्याख्या । k) वैष्ट १ ६. । l) = सवृद्ध- इति भवत्सामी । m) उप इत् । n) उप
 = नपर- ।

१७,७ : ४; -इया कथ २,१०,
८५; -इयाम् वीथी ११, १ :
१४; वृद्धे ५,१३४.

सप्तदश-त्रयस्त्रिंशत्(श-श)
न्त^० - न्तान् छाथी ८,१२,६.
सप्तदश-त्रिणव- -वयोः निम्न
४,११ : ४; -थी निम्न ७,६:१४.
सप्तदश-न्व- -न्वाद् छाथी
८,५,६.

सप्तदश-नवदश- -शौ निम्न
७,१२ : ४.

सप्तदश-स्तोम^० - स्तः वीथी
१८, ३३ : १; ३० : ४; १२;
या ७,११; -मम् छाथी १०,४,
१; निम्न ८,१० : ३९; १३:४७;
-मस्य छाथी १४,२४,२; -माः
छाथी ११,११,१; -मानि निम्न
८,१३ : १४; -मेव वीथी २१,
१ : ४.

सप्तदशैः (श-र) कविश-
-शानि छाथी १४,३३, ४; -शे
छाथी १५, ६, २; -शौ वीथी
१८,३१ : १०; २५,५ : १३.
सप्तदश-क^० - कम् कथ ३,
२२; अथ ५,२४.

सप्तदश-कृदवय (ः) आपथी १४,
११,१; द्विथी १०,६,१.

सप्तदश-गण-एरण- -णम्
छाथी १४,१,२२.

सप्तदश-च्छदि^० - दि^० द्विथी ९,
५,१६.

सप्तदश-च्छदिम्^० - दि^० वीथी
१७,२ : २.

सप्तदश-ठा- -त्वा छाथी १४,३,
३३.

सप्तदश-फल(क>)का^० - काम्
वीथी ११,१ : ४.

सप्तदशम्^० - मम् अथ ४२,
५,७.

सप्तदश-मात्रा(या-अ)न्वर-
-रम् अथ १३,३,५.

सप्तदश-नाम्^० - न्मः वीथी १६,
३३ : ९; -ग्रम् छाथी ११, २,
१५; आपथी २३,२, १३; द्विथी
१८, १, २१; -ग्रथ् निम्न ९,
११ : १; -त्रे निम्न ५, ११ :
१०; ९,११:२.

सप्तदशशत्रु(श-आ)दि-
-दीनि छाथी २४,३,३२.

सप्तदश(श-र)थ^० - थम् अथ
५,३०; -थैश्चः अथ ४६,१०,
१४; अथ १९,२३.

सप्तदश-धारात्^० - धः छाथी
१५,२,१२; धाथी १४,२,२६;
-वम् आपथी १८,२,१७; वीथी
११,१ : ६; ७ : १; ९ : १; धाथी.

सप्तदश-सामिधेनीक^० - कः
आपथी ३,१५,४; भाथी ३,१३,
७; -कम् आपथी ५, २१, ८;
वीथी २६,४ : १; -काः वीथी
२०,१०,१२; २२:१६; २३, १:३.

सप्तदशा(श-अ)पवर्ग^० - र्गः
छाथी ९,१,३.

सप्तदशा(श-अ)र^० - रम् आपथी
१८, ४, ३; वीथी ११, १ : ४;
२२, १३ : ६; धाथी ३, १, १,
३३; वीथी १७, १२ : ८; द्विथी
१३, १, ४२; धाथी १५,४,४;
छाथी ५,१२,११.

सप्तदशा(श-अ)रथि^० - रथिः

छाथी १५,१,१६; आपथी १८,
१, ८; धाथी ३,१,१, ७; वीथी
१७, ७ : ६; द्विथी १३, १, ७;
-रथि वीथी ११, १ : ५.

सप्तदशा(श-अ)वर्ति^० - र्तिः आप्
१,११ : १५.

सप्तदशा(श-अ)मसा(न>)ना^० -
-ना छाथी १९,७,४.

सप्तदशि(क>)का^० - का
आपथ ५,५; द्विथ २,१४.

सप्तदशिव^० - शिना वीथी २६,
३१ : १.

सप्त-दा(मन्>)मो^० - म्याम्
द्विथ ३४,१७.

सप्त-द्वी(व>)वा^० - वाम् अथ
१४,१,४; १७,१,५.

सप्त-धा आपथी १६, ६, ३; वीथी
१०,९ : १५; धाथी ६, १, २,
२४; धाथी; द्विथ १८,१२;
धाथ १, २७; ५, १२; आपथ
८, १०.

सप्तधा-एत- -रम् द्विथ १८,१,
सप्त-धात्^० - तु वीथी १,२,१,२१.

सप्तधात्^० - कम् द्विथ १६,४३.

सप्त-धाम्- -मभिः धाथ ३, २, १४.

सप्त-धात्^० - नाम् अथ १,१,१५.

सप्त-नवति- -तिः वीथी १७,७ : ८.
सप्त-नामत्^० - मा या ४,२७४.

सप्त-न्यासात्^० - नाय वीथ १२ : २;
द्विथ १,११; या २,२३.

सप्त-नर^० - न्याः अथ ३०,२,३.

सप्त-वद्-> षद्- -द्वा छाथी १८,
१६,२; वीथी १४,१० : ५; १२;
धाथी; -दाः आप् ३,७ : ८;
अथ १२,२,४; -दालाम् छाथी

a) धत्. > धत्. । b) कथ. वा धत्. वा । c) क्त् प्र. (या ५, १, ५८) । d) वत्. ।

e) परपरं पाठे. । f) पाठः! सप्तदश-> -नाम् इति सोष् (द्. संस्कृतं. टि.) । g) वेग १ द्. ।

h) तद्विधायं द्विथ. । i) द् १४६८ अ द्. । j) द्विथिः प्र. (याव ५, १, ५८) ।

सप्त-गु^१-गु श्रुत २, १०, ४७,
 बुदे ७, ५९, साञ १, ३१७, -गुना
 बौधौ २५, ४ १०, बौधि ३, १,
 ८, -गुम् बौधौ २५, ४: १११,
 बुदे ७, ५५
 सप्तसु स्तुति-सहस्र- -ष्ट. श्रुत
 २, १०, ४७
 सप्तसु स्तुति-हर्षित- -ञ बुदे
 ७, ५७.
 सप्त-गुण, गा- ण केज्यो १६,
 -गा, -गाम् केज्यो २१
 सप्त ग्रहण- -गम् पारा ६, १, ६
 सप्त ग्राम^२- -गम् कौत् २२, ७
 सप्त चत्वारिंशत्- -शत् शोधौ १२,
 २, १६, बौधु १४ ६, श्रुत २,
 १०, ८५
 सप्त चन्द्रम्- -न्दसाम् निम् १,
 १०. १
 सप्त छि (>) द्वा^३- -द्रया कौत्
 ८१, २५
 सप्त जन्मा (न्म-ञ) गुण- -गम् अण
 १६, २, १.
 सप्त-जन्तु^४- -न्तुम् वैताथी १०,
 १७.
 सप्त-वष- -वम् व्यापथी २५, २०, ८,
 माथी ११, २१, ९, भाव ३, ६
 १७
 सप्त वि- पा ५, १, ५९, पाठ ५,
 ३८, वि ७, -ति शोधौ ९,
 २८, १०१, वाथी, -तिम्
 आथी ८, ३, १४, लाथी ९, ६,
 १०, अण ५७, ४, ६, -ती बुद
 ६, ५१, -व्या गौवि २, १, १२,^५
 -व्याऽ-व्या आपथी ९, ११, २३,

आमिष्ट ३, १०, ५०, ७, बौधि
 ३, ८, १, द्विपि २३. २३, -व्या
 बौध २, १०, ६, -व्याम् नैञ २७
 सप्तति-मान^६- -नाम् बौधौ २६,
 ६: १२, माथी १, ५, ६, ४.
 सप्तस्यु (ति-ऊ) ^७र्व- -ध्वम् वैष
 २, ६, १
 सप्तस्ये (ति-एक) ^८र्वा- -का
 अण ५२, ७, ३
 सप्त त्रिंशत्- -शत् निम् ४, ११
 ७, अण २३, १, ४, श्रुत २, ८,
 १९, अण ११, १, निप १,
 १३, वा २, २४
 सप्तत्रिंश- -शत् अण ४: १४
 सप्तत्रिंशत्-त (म) ^९मी- -मी
 बुदे ६, ४५
 सप्तत्रिंशत्-राज- -ज. आथी
 ११, ४, ७, शोधौ १३, १७, २,
 बौधौ १६, ३६: ३, -जम् काथी
 २४, २, ३४, आपथी २३, ६, ५,
 -ज्जण द्विथी १८, २, १४
 सप्तत्रिं (श-क) ^{१०}सिक्वा- -का
 आपथु ५, ६, द्विष् २, १५
 षंसप्त-य^{११}- -यम् वा १४, १९, ६,
 अथा ३, ४, १
 सप्त दशन्- -श आथी ६, ४, १०,
 २, ९, २x४, शोधौ, काथी ६,
 १, २^०, वैथी १७, ११ ८,^१
 -शऽ-श काथी १५, ३, १७,
 काथी १४, २, २१,^१ -शमि काथी
 १४, १, २०, आपथी १८, १, १२,
 २, ५, बौधौ, -शमि ५ शमि
 आथी १०, २, २९, -शम्य
 आपथी २१, १, १६, -शसु बौधौ

११, ७ ३७, वाथी ३, १, १,
 ३५, -शानाम् आपथी २१, १,
 १७, बौधौ २५, ३३ १, वाथी
 सासदश्य- -श्यम् शोधौ १,
 १६, १९, बीत् ८, ४, १४,
 -श्ये शोधौ १, ४, ११, -श्ये
 द्विथी २१, २, ३
 सासदश्य वय भौद ९,
 १, ५२, १०, ८, ३२
 सप्तदश^{१२}- -श आथी १०, ३,
 ११, शोधौ, वैताथी २७, ११,^{१२}
 अण १३, ३, ६, ४८, १४६,
 -शम् आथी ६, १०, २२, १०,
 ३, ९, शोधौ, भाव १, २३, ५,
 आज्यो २, ९, -शस्य शोधौ १६,
 २४, ८, बौधौ १६ २४ ९,
 छम्, -शा आथी ४, १२, १,
 १२, ५, १६, काथी, -शाव निम्
 १, १० ५, -शाव निम् १०,
 ४: ११, -शामि आथी ९, ९,
 १४, १७, ११ ५, २, शोधौ २,
 २१, ५, १४ १२, ८, १५, १, १५
 काथी, वैथी १७, ११: ८,^{१३} द्विथी
 १३, १, ३२,^{१३} -शे आथी ७, ५,
 ११, आपथी २२, २०, ८, द्विथी
 १६, ८, ५, १७, ७, १९, काथी
 ६, ७, १२, निम्, -शेन काथी
 ४, १२, २, १२, ३, ३, ४, २३,
 शोधौ, -शेस्य शोधौ १७, २७,
 ११, -शी शोधौ १४, २६, २
 सप्तदशी- -शी शोधौ
 १८, १४, ३, बौधौ २४, २१: ५
 श्रुत २, ७, १०४, बुदे ७, १२४,
 -शीम् आपथी १८, १, ७, वैथी

a) नाप (कतु-), ध्वप । बल । b) समाहारे द्वित । c) वस । d) वैष १६ । e) वस
 वप = २मान- । f) मने. कस परनिपात उस (पा २, २, ३१) । g) = रसपुत्र- (द्व वैष १) ।
 h) = सादशरति-यु- । i) श्वा, श्वाति > सप्त काथी श्वाऽश इति पाठे । j) वैष १, १-२३ k k ।
 h) श्वा इति पाठ. १ गनि शोप. (दु गोत्रा २, २, १३, BC, O) । l) सा इति संस्कृ. शोधविषयम् ।

पा २,३,७.
 सप्तमी-पञ्चमी-प्रथमा-
 -मास्यः पा ५,३,२७.
 सप्तमी-प्रसङ्ग- -ः पावा
 ४,३,२४.
 सप्तमी-विधान- -ने
 पावा २,३, ३६; ३७.
 सप्तमी-विशेषण- -जे
 पा २,२,३५.
 सप्तमी-श्रवणा (म-श)
 र्थ- -धम् पावा ४,३,२४.
 सप्तमी-स्थ- -स्थम् पा
 ३,१,९२; -स्थान् पा ५, ४,
 ८२.
 सप्तमी-हारिन्- -रिणौ
 पा ६,२,६५.
 सप्तम्य(मी-श)र्थ- -र्थ
 श्वा २,१,६; शीघ्र १,७४; पा
 १,१,१९.
 सप्तम्या(मी-श) र्थ-
 (दि-अ)शुब्- -युजः ऋष २,
 ८, १०३.
 सप्तम्या(मी-२व्याश>)
 व्या- -वः ऋष २,९, ५९;
 ८,६३; -वामिः वृदे ३,३८.
 सप्तम्या(मी-श्या)मन्त्रित-
 -नयोः शुभ ३,१३९.
 सप्तम्यु(मी-उ)पमान-
 पूर्वपद- -रस्य पावा २,२,७४.
 सप्तम-नवम- -नयोः साश २,
 ५७९; ५८०; ६८०; ६८१.
 सप्तम-पञ्चम- -मात् शंघ ६९.
 सप्तम-युग- -ग्रम् पा ४, २६.
 सप्तम-प्रवृत्ति- -तवः ताश्री
 ७,७,४; -तिषु निम् १०, २;

३२.
 सप्तम-भाग- -गम् काष्ठ ५,१०;
 -नेव काष्ठ ६,३.
 सप्तम-वपस्- -सम् श्वापशु
 ७,४.
 सप्तमा(म-आ)दि- -दयः मैम
 २२; -दीनाम् आश्री २,१८,१८.
 सप्तमा(म-अ)नुवाक- -के वैश्री
 १९,६; ३९.
 सप्तमा(म-अ)न्त- -न्तः ऋषा
 १,१७.
 सप्तमा(म-अ)एग- -माभ्यान्
 ताश्री ७,५,१८; अष ४६,९,३;
 श्वापय २, ३, २०; हिष २, १,
 ५०; अल १९, २२१.
 सप्त-मन्त्र- -न्त्रैः वैश्री २१, ११:६.
 सप्त-मर्यादा- -दाम् शंघ २६६.
 सप्त-मात्र- -त्रम् अष १,७,१.
 सप्त-मास- -सात् बौध १,५,१२.
 सप्त-मु(ल>)आ- -आम् वायु
 १,६; गाए १,१,२.
 सप्त-मौ(ल>)मी- -मीम् वायु
 ६,३.
 सप्त-यन्त- -नानि श्वा १३, ४२.
 सप्त-रदिम- -दिमा वीश्री १८,१:
 १५.
 सप्त-रात्र- -त्रः शीश्री १६,२६, ६;
 -त्रम् वायु १, ३२; वैशु ६, १:
 १; अष ३,९,१३; अष २, ३३,
 १०×४; श्वाप २३,३०; शंघ ४१८;
 ४२२, ४२४×४; श्वापय; -तस्य
 आश्री २२, १४, ८; वाश्री ३,
 ३,१,२; दिश्री १७,६, ३; -त्रा-
 आश्री २२, २२, १०; निम् ८,
 १३:१; -त्रायाम् ताश्री ९.

१२,१७; -त्रात् भागु ३,२०:
 ९; अष २१,७, ३; ६३, २, ४;
 ७२,२, ९; बौध ३, ५, ५; ४;
 ६,६; वा १४, ६; -त्राय बौश्री
 १६,३१:१; -त्रे निम् ८,१३:
 ३४; -त्रेण शीश्री १६, २६,१;
 ११; दिश्री १७, ८, १६; २४;
 श्वापय १, २७, ४; बौध २, १,
 ६३; ४, ५, २३; हिष १, ७,
 २९; -त्रेषु निम् ८,११:१५.
 सप्तरात्र-प्रवृत्ति- -त्रयः निम् ९,
 ८:२६.
 सप्तरात्र-वृत्ति- -वृषा अष ५१,
 ५,४.
 सप्तरात्रो(त्र-ल)पवास- -सः
 बौध ४; ५,२३.
 सप्त-रात्रि- -श्री वैशु ६, ८:१२.
 सप्तरात्रि-क- -कम् अष ५१,
 ५,५.
 सप्त(त-क)र्ष- -र्षः उनिम् ६:९;
 -र्षम् वैताश्री ३२, ८; शुभ २,
 ३२७; ३४९; ४, २१; अष २,
 ५,१७; २७×४; -र्षानि वष २:
 ८५; -र्षेण अष १, ८; -र्षेभ्यः
 अष ४६, १०,४.
 सप्तर्ष-नवर्ष- -र्षान् निम् ७,
 २:१.
 सप्तर्षो(र्ष-उ)परधान- -नम्
 काश्री १८,४,१२.
 सप्त(त-श)र्षि- -र्षेभ्यः वाश्री ३,
 १२:३; श्वापय १,९,७; २,४,५;
 वाए; अल ६, ४८९; -र्षिभिः
 अल ११, १(२)१; -र्षिभ्यः
 आश्री २,४,१३; श्वापय ६,१२,
 ७; बौधो ३, ७:६; भाश्री; वैशु २,

व) समाहारे द्वस.। ब) वस.। c) मलो. फम.। d) वय. पू. = वामन.। e) विचारार्थोक्तस्य
 मणः प्र. वा लुक् इत्स. (यक. पा ४, २, १६४; १६३)। f) परपरं पत्ते.। g) वस. वप. = वयन.।
 h) समाहारे द्विस. समातागताऽन्याः। i) स्वार्थे प्र.। j) विप. नाप.।
 ६९२-५-५४

७, २६, ११; -दापाम् निम्
१,७:२१; -दे षष्ठ ११,९.
सप्तपदा(दा-अ)वसान- -नम्
नप्रा १८,११.
सप्तपदी- -दी बौधौ १४,
१४:३२; आष्ट १,७,१९; बौध
१,८, २८; शौच; वाष्ट १४,
२२; बौध १, २१:२०.
सप्त-पद^१->साप्तपदीन- -नम्
पा ५,२,२२.
सप्त-पद,दा^२- -दा^३ आपर्णं १,
३,१४; पाष्ट १,८,१; काष्ट २५,
४२; माष्ट १, १७:६; -दा^४
आपथौ १०,२३,३; बौध १,१,
२९; -दौ^५ आपर्णं १, ३,
१४; आमिष्ट १, ५, ४:४५;
६, ३:३४; माष्ट १, १७:६;
हिष्ट १,२१,२.
सप्त-पद^६- -नम् आमिष्ट २, ७,७:
११.
सप्त-पदा(व>)शी^७- -शीम् कौष्ट
३८,११.
सप्त-पाकञ्ज- -जगाम् बौध ४,
१,१; ९,१:२.
सप्त-पाद^८- -पाद श्वम् २, १०;
४,३४; -पाद: श्वम् २,१०.
सप्त-पुत्र^९- -श्वम् वा ४,२६:१६.
सप्त-पुत्र्य- -श्वम् माथौ १, १,५,
३०; माथौ २,१,७,३२.
सप्त-पुत्र्य^{१०}->साप्तपुत्र्य^{१०}-
-श्वम् वाच ४, १७.
साप्तपौत्र(प^{११}>)पी- -पी शंघ
३६१.

सप्त-पदा(ह>)हा^१- -हाम् शंघ
११६:११.
सप्त-प्राणा(प-आ)पवन- -नेष्टु
आमिष्ट ३,४,१:२६; बौध ३,
३,५.
सप्त-का(ल>)ला^२- -ला श्वम् २६
२,१.
सप्त-भे(द>)दा^३- -दा: चव्यू ३,
४:६.
सप्त-म- -म: आथौ १०, ३, १५;
११, ७, ११; शौचौ; -मम्
आथौ ८, २, १४; ११,७,१०;
१८; शौचौ; -मस्य आथौ ११,
७,१४; १२,१,५; बौधौ १०,
४८: ८४४; छष्ट; -मा: श्वं
४: १९; -मात् आपथौ ७,
२४, १०; माथौ ७, १९, १०;
प्राथौ ८,२,२७; साथौ ४, ७,
८; निष्ट ४, १२: १७; १२:
२८; पाष्ट ३, १०, १६; आमिष्ट
३,७,४: २; बौध २, ३, ७;
वाष्ट १०, २; वैष्ट ५, ११: ७;
शंघ ११६: ७४; ११८; आपथ
२,१५,२; बौध १,५, ११; विष्ट
२४,१०; हिष्ट २, ३, ३२; गौध
४,३; शुषप ८८: १; -माय्याम्
आपञ्च १२, ७; हिष्ट ६, २४;
-मे आथौ १०, ७, ७; शौचौ
१६,२,१९; आथौ २२,७,१३;
आपथौ १०,२३,१; बौधौ; -मेव
आपथौ २३, ८,६; बौधौ २२,
२: ५; माथौ १,२,३,७; गौध
४, २२; आपञ्च १२, १०; काष्ठ

५,१०; हिष्ट ६,३०.
सप्तमी^४- -मी शौचौ १८,
२३, १०; आपथौ १७, २०,
३४४; बौधौ; माथौ ३, २,
८, १३; शंघ ११५; श्वम्
२, १, ८९; २, ३; ८, १३४४;
पा २, १, ४०; ३, ९४४; पावा
१, १, १९; २, ३, २६;
आपथौ ४, २; ६, ३; ९;
-मीम् काथौ ७,१,२१; आपथौ
१०,१५,१; ११,१६, ६; १६;
८,१३; माथौ; वाच ८,२; २०,
२६; बौध ३, ८, ९; -म:
आपथु १७, ६; -म्या आपथौ
६, १६, ५; बौधौ १०, २९:
८; २०,१९:४; आष्ट; -म:
हिथौ १३, ७, १; काष्ट ५, ४,
१०; वा ४,१५; पा ५, ३,१७;
६, २,१५२; ३,८; पावा २, २,
३५; ४,८४; -म्यात् काथौ १५,
८,१४; २०,४,७; आपथौ २०,
८,११; बौधौ; वा ३, २,६७,
४,४९; आञ्चौ १३, ९; -म्यो
हिष्ट ५,४६.
साप्तमिक^५- -क
प्राथौ २,३,७; साथौ ३,६,२५;
-कौ श्वम् १, ७२.
साप्तमिकी-
-की निष्ट ८,९: १८.
सप्तमी-निर्देश- -न:
पावा ६,१,१८२.
सप्तमी-पञ्चमी- -म्यो
पावा १, १,६७,२,३,८; -म्यो

d) तथा. सप्तपदी (मैत्रा १, २, १३ च) <> सप्तपदा इति पठे. e) कश्च. f) बघ. g) सपा. 'दा: (तैत्ति ३, ७, ७, ११ च) <> शौच इति पठे. h) 'दाव' इति पाठः? शौच: पठे. च
पृ १८९५ a, b द. i) उप. = २१८-1 g) तस्येदमथि यथि नोभवपदइति: h) सप्तपु, प्राणा इति
B. i) विप., नाप. (तिथि., विमकि- प्रथ.) i) श्व: इति पाठः? यनि. शौच: (सु. काविरर 100.
१९४९.) k) भवाचर्थे प्र. i

सप्ता(स-अ)श्वर,रा- रः श्रपा
 १६,२८; -रम् वाधूषी ४,३१ :
 १; १०० : ७; -रा निम् १,६ :
 १२; श्रपा १६, २१; -राः
 निम् १, २ : ९; -राम् वीध
 १,२,१७; -रेण वाधूषी ४,
 १०० : २८; -रैः श्रपा १६,
 ३३; उनिम् १ : ११;१६.
 सप्ता(स-अ)गार- रम्^३ श्रप १,
 २४,१५; विष २८, ४५; -रेडु
 वैष १,६,३.
 सप्तागारिक^३ -कम् विष १६,३
 सप्ता(स-अ)हृगुल-द्वीकृ(त >)
 ता^३ -ना श्रप २६,४, १.
 :सप्ता(स-अ)धि(क >)का^३ -ना
 कृम २,७,३२; १०, ६१.
 सप्ताधिका(क-अ)दीति- -तिः
 कृम ३,३४.
 सप्ता(स-अ)ह-होम- -मान् वीधो
 ११,७ : ५.
 :सप्ता(स-अ)धर्वा^३ -धौ शाधो
 ९,४,१०.
 सप्ता(स-अ)धै- -धम् वीध ११:१.
 सप्ता(स-अ)धै^३ -धै विष ८५,
 ३९.
 सप्ता(स-अ)धैव^३ -ना वैष ४,
 २,१.
 सप्ता(स-अ)धीति- -तिः निम् ५,
 ३ : १४.
 सप्ता(स-अ)ध्व-धर्वा(वि-अ)
 न्वरित- -रम् श्रप २६६.
 सप्ता(स-अ)स्थि(त >)ठा^३ -ना
 श्रम १,१ : १५;१८.

सप्ता(स-अ)रथ^३ -रथः वीधो १८,
 १ : १४५. -
 सप्ता(स-अ)ह- -हः वीधो २६, ३ :
 १८; निम् ९,१२ : ४; ९; १०;
 -हम् श्रप २०,८,८; काधोसं
 ३ : २; माधो ३, २, १२;
 वाधो; -हाः काधो २३, ५, ५;
 -हान् वर ३५, १, ९; -हान्
 निम् ५,१२ : २१; श्रप १,
 २९,१७^३; द्विष १, ७, ७४^३;
 -हाय वीधो २६, १० : २१;
 -हे माधो ५,१,८,८; आनिम्
 ३,४,५ : २; वीधि ३, १०, १;
 -हेऽ-हे माधो ५,१,८,८; -हेव
 वीधो २६,३ : ११.
 सप्ताहा(ह-अ)भियव^३ -वः
 काधो २२, १, ४४.
 सप्ताहा(ह-अ)म्पन्तर- -ने श्रप
 ६४,१,७; २, १; ४; ७०^३, २०,
 २; -रेण श्रप ६२, १, ३.
 सप्ताहा(ह-अ)धै- -धै शाधो
 १३,१५,१०.
 सप्तिक^३ -> ऋ-चतुर्विधिक-
 कपोः वीधु १ : ३५.
 सप्तिर- -ती काधो ८, ५, २३;
 श्रपा १६,२०.
 सप्ति-सप्तृति- -तवः निम् १,
 ९ : १०.
 सप्ति-सप्तृण- -धौ निम् ७,
 ८ : २४.
 सप्तिसप्तृण-स्रोम- -मो
 निम् ७,८ : २०.
 सप्तो(स-अ)तर^३ -रम् विष ९६,

८६; -रे कृम ३,४१.
 सप्तो(स-अ)ना- -ना कृम
 २, १, २७; ५०४४.
 सप्त-नामन्- प्रस. सप्त- द.
 सप्तल^३ (> सप्तलायन- , सप्त-
 लेय-पा.)श्रम ४,१,१९^३; २,८०^३
 सप्त-धती- प्रस. सप्त- द.
 सप्तवैल^३ -लाः वीधो ४५ : ८.
 सप्तवृ^३ - -हम् निम् ७,१ : २०.
 सप्त-होतृ- प्रस. सप्त- द.
 सप्तिति^३ - पाठो २,१, १८४; -सयः
 श्रपो ५, ५, १९^३; -पृतिः
 श्रप १८,४,१६; वीधो ११,
 ७ : ३४; १५, ७ : १३; वाधो;
 -पृतिम् श्रपो ८, १८, १;
 कृम २, १०, ८०; -०से तैषा
 ६,५^३; -सेः या ९,१३^३.
 सप्त(सि-अ)गद्वाह- -द्वाधो ध्वे
 ३,५०.
 स(सि >)सी-वत्^३ - -वन्ता श्रपा
 ९,१७^३.
 सप्तिति^३ -तिः श्रम २, १०, ७६.
 सप्तै श्रप ४८,१^३.
 स^३-प्रकार- -कृम काठ ४१,२३^३.
 स^३-प्रकृति- -तोः पाया ६,१,१५९
 स^३-प्रकृति- -तिः कृम ३,७,५.
 स^३-प्रगाथ- -यानि श्रपो ८, ४,
 १८; -धौ शाधो १२, ६, ९.
 स^३-प्र(आ >)ज- -जः श्रप २,
 २२,८; द्विष २, ५, १३८.
 स^३-प्रजापतिक- -कृम श्रप २,
 ५,१०; श्रप ३,१,१; काठ ४१,
 २३; -वेभ्यः वीम् ५६, १३^३.

a) उमाहारे द्विष. b) विष. (भैचव-). c) विष. (समिष्-). तद्विधायं द्विष. > यम. d) वय. e) तीर्थ-विशेष- f) विष. (प्रपट-). g) वैष २, ३५. द. h) पाधे. १ २४५७ b द. i) १ १४६८ a द. j) यव. k) सप्तल- (द्व. पायम.). l) अर्थः ? m) सप्त-विशेष- n) वैष १ द. o) सप्ता. द्वि ५, ५, ४ मा २२, २२ प्रस. माश १३, १, ५, ५ तैसा ३, ८, १३, ३ सुतिः इति पाधे. p) = वय- q) = सप्त- r) पाधे. १ २५६ d द.

१२:१०९; -पीपीणाम् आपथी
३,१९, १; ६, ८, ११; वीथी;
वीथीय ५४:१४९; -पीपीन्
आपथी ६, १२, ७; वीथी २,
१८:३८; ३, ७:६; ७; माथी-
सप्तपीणां(सप्तारात्र-)-आपथी २२,
२२, १३; द्विथी १७, ८, १७.
सप्त-व(त्) - वीथी- वीथीम् द्वि
१, २६, १४; -व्या आपथी ५,
१८, १; ७, ७, १; १७, १५, ७;
माथी ७, ५, ६; वैथी १९, ६:
१४.
सप्त-वधि^० - वधि: शक्य २, ५, ७८;
८, ७३; साध १, २९; ८९.
सप्त-वर्ग^० - वर्गम् निम् १, ६: २३;
-र्गा निम् १, ५: १५; -वर्गम्
वीथी २१, ८: १६; -वर्गं शक्य
१, ३, ७; शुक ५, ७; -वर्गं निम्
१, ५: २६.
सप्त-वर्ष^० - वर्षम् द्वि १, १, २.
सप्त-विक्षति^० - वि: थापथी १०,
२६, ७; ११, ९, ७, काठथी १००;
वीथी; वापथी ४, ४६: ९;
-विभि: वृदे ५, १२; -विम्
शोथी १४, ७८, २; निम् ५, १२:
२१; २२; शुक २, १२७.
सप्त-विक्षा^० - शम् थापथी ९, ९.
सप्त-विक्षा^० - वी शक्य २, ६,
१६; ९, ६७.
सप्त-विक्षक^० - के शक्य १६,
७७.
सप्त-विक्षति-क^० - कम् वैथ ४,

१४: ४.
सप्त-विक्षति-क^० - विन: क^० द्राथी
८, ४, ४.
सप्त-विक्षति-रात्र^० - शम् आथी
११, ३, ११; काथी २४, २, २२;
जापथी २३, ४, ७; -त्रेण द्विथी
१८, २, ४.
सप्त-विक्षति-शक्य^० - शानि शोथी
१४, ७९, २; १६, ८, ११.
सप्त-विक्षति-शक्य^० - शय:
वीथु ४: ६.
सप्त-विक्षति^० - विन: क^० लाथी ४,
८, ४; निम् ५, ११: १०.
सप्त-विचार^० - शम् नाशि १, १, ८.
सप्त-वि(धा>)ध^० - ध: शक्यथी
१६, १७, १६; वैथी १८, १४:
२९; थापथु; -धम् शोथी १६,
२६, १; २; ११; थापथी; -धा:
वीथी २६, १०: ७; वीथि ८;
याशि २, ११.
सप्त-विध-प्रभृति^० - वि वीथु ५: ३.
सप्त-विध-वाक्यशेषत्व^० - श्वत्
थापथु ८, ९; द्वि ३, १२.
सप्त-व्याहृति^० - विभि: आभि ३,
१०, ४: ९; द्वि १८: १४; वीथ
२, १०, ७२; वैथ २, ८: ४.
सप्त-व्याहृति-व(वे>)र्वा-
-वाम् वैथ २, १०, ३.
सप्त-शत^० - शम् या ९, २८; १४, ७.
सप्त-श(फ>)श^० - श्मा माथी
१०, १४, १९; १७, १२.
सप्त-शिरस^० - श्मा वीथी २८, ७:

६१.
सप्त-शीर्ष^० - श्मा विथ १, ५६.
सप्त-शी(र्ष>)णी^० - श्मा
वैताथी ३३, २११.
सप्त-शक्ति^० - शि: श्मा ५२, ६, ५; विथ
९६, ८८.
सप्त-शक्ति^० - वि: श्मा ५२, ४, १.
सप्त-सप्त(सप्त-शु(ठ>)श^० -
-श्या: श्मा १, ६, १००.
सप्त-शरस^० > शम्-व(त्) - वी-
-शिय श्मा ११६: १२.
सप्त-शागर-मेखला^० - श्मा श
४, २, १२.
सप्त-सूक्त^० - श्मा: श्मा २: ११.
सप्त-स्व^० - श्मा, श्मा श्मा
१०, ५१.
सप्त-शोच^० - शि: श्मा १०, १६,
१; वापथी ३, ४९: ३१; -श
वीथी १७, २१: ८; वापथी ३,
४९: २१; द्विथी २१, १, ११;
या ११, २३११; -श्या: थापथी
२१, ११, १; द्विथी १६, ४, १३;
-शरम् शोथी १०, १६, १;
-थापथी; -शु^० वीथी १९, ७,
५३: ४; द्विथी १६, ४, १४;
-शम् थापथी १४, १४, ११;
माथी २, १, २३; द्विथी.
सप्त-शो(श>)श^० - शम् वैथ ५
४: १४; -शम् वापथी २४:
११.
सप्त-शो(श>)श^० - श्मा
वीथी १९, ७: २९.

a) Old. सप्तवतीम् इति? । b) वैथ १ प्र. । c) समाहारे द्वि. । d) श्मा श्मा
१६, ५९ वीथी इति पाठे. । e) श्मा. = श्मा. । f) श्मा इति पाठः ? यनि. शोथ: (श्मा. प्रकल्पम्) ।
g) श्मा श्मा प्र. । h) परिमाणार्थे इत्युत् प्र. (पा ५, १, २४) । i) श्मा प्र. । j) परिमाणार्थे इति: प्र. ।
k) श्मा. श्मा: <> श्मा: इति पाठे. । l) परिमाणार्थे इति: प्र. । m) श्मा. । n) श्मा श्मा इति.
श्मा. श्मा श्मा इति. । o) श्मा इति BI. । p) श्मा. > श्मा. । q) श्मा, श्मा. (श्मा-). श्मा.
r) = श्मा-शोथ- । s) = [उपचारात्.] श्मा-शोथ- ।

सप्ता(स-अ)शर,स- नः श्रया
 १६,२८; -रम् बाध्नी ४,३१ :
 १; १०० : ७; -रा निम् १,६ :
 १२; श्रया १६, २१; -राः
 निम् १, २ : ९; -राम् चौध
 १,२,१७; -रेण बाध्नी ४,
 १०० : २८; -रैः श्रया १६,
 ३२; उनिम् १ : ११; १९.
 सप्ता(स-अ)गार- रम् श्रया १,
 २४, १५; विध २८, ४९; -रैण
 वैध १,९,३.
 सप्तागारिक- -कम् विध १६, ३
 सप्ता(स-अ)हृगुल-वृलीकृ(त>)
 ता- न्वा अय २६, ४, १.
 सप्ता(स-अ)धिक(क>)का- का
 श्रय २, ७, ३२; १०, ६१.
 सप्ताधिक(क-अ)शक्ति- नतिः
 श्रय ३, ३४.
 सप्ता(स-अ)त-होम- मान् बौधो
 ११, ७ : ५.
 सप्ता(स-अ)पवर्ग- -गौ काशो
 ९, ४, १०.
 सप्ता(स-अ)ध- धम् बौधो ११ : १.
 सप्ता(स-अ)प- -यै विध ८५,
 ३९.
 सप्ता(स-अ)पेव- -न्य वैध ४,
 २, १.
 सप्ता(स-अ)शक्ति- -तिः निम् ५,
 ३ : १४.
 सप्ता(स-अ)धय-वर्गा(र्षि-अ)
 शक्ति- -रम् शेष २६६.
 सप्ता(स-अ)शिव(त>)दा- ता
 श्रय १, १ : १५; १८.

सप्ता(स-अ)स्- -रयः बौधो १८,
 १ : १४।
 सप्ता(स-अ)ह- -हः बौधो २६, ३ :
 १८; निम् ९, १२ : ४; ९; १०;
 -हम् आपथी २०, ८, ८; काशोसं
 ३ : २; गाथी ३, २, १२;
 बाधो; -हाः काथी २३, ५, ५;
 -हाण अय ३५, १, ९; -हान्
 निम् ५, १२ : २१; आपथ १,
 २१, १७; हिध १, ७, ७४; ७;
 -हाय बौधो २६, १० : २१;
 -हे माथी ५, १, ८, ८; आसिध
 ३, ४, ५ : २; बौधि ३, १०, १;
 -हेऽहे माथी ५, १, ८, ८; -हेण
 बौधो २६, ३ : ११.
 सप्ताहा(ह-अ)सिपव- -नः
 बाधो २२, १, ४४.
 सप्ताहा(ह-अ)न्यय- -रे अय
 ६४, १, ७; २, २; ४; ७०, २०,
 २; -रेण अय ६२, १, ३.
 सप्ताहा(ह-अ)ध- -यै शाशो
 १३, १५, १०.
 सप्तिक-> क-चतुर्विदिक-
 -कयोः बौधो १ : २७.
 सप्तिक- -शो काथो ८, ५, २३;
 श्रया १६, २०.
 सप्तिक-प्रवृत्ति- -न्यः निम् १,
 ९ : १०.
 सप्तिक-सप्तदश- -श्री निम् ७,
 ८ : २४.
 सप्तिकसप्तदश-श्लोम- -श्री
 निम् ७, ८ : २०.
 सप्तो(ह-अ)शर- रम् विध ९६,

८६; -रे श्रय ३, ४१.
 सप्तो(स-अ)ना- न्वा श्रय
 २, १, २७; ५० xx.
 सप्तनामन्- प्रय. सप्तन्- द.
 सप्तल- (> सासलायन-, सास-
 लेय-वा.)पाण्ड, १, १९; २, ८०।
 सप्तचती- प्रय. सप्तन्- द.
 सप्तचैल- -काः बौधो ४५ : ८.
 सप्तहृ- -हम् निम् ७, १ : २०.
 सप्तहोद- प्रय. सप्तन्- द.
 सप्तिति- पाठयो २, १, १८४; -सयः
 बाधो ५, ५, १९; -शक्तिः
 आपथी १८, ४, १६; बौधो ११,
 ७ : ३४; १५, ७ : १३; बाधो;
 -शक्तिम् गाथी ८, १८, १०;
 श्रय २, १०, ८०; -से तैमा
 ६, ५; -सेः गा ९, ३१।
 सप्तिति(सि-अ)वद्वाह- -न्वाहौ वृदे
 ३, ५०.
 सप्तिति->श्लो-रय- -वन्ता श्रया
 ९, १७।
 सप्तिति- -तिः श्रय २, १०, ७९.
 सिते अय ४८, २१।
 स-प्रकाश- -सत्य काय ४१, २१।
 स-प्रवृत्ति- -शैः पावा ६, १, १५९
 स-प्रवृत्ति- -शैः श्रय ३, ७, ५.
 स-प्रगाथ- -न्यानि बाधो ८, ४,
 १८; -शो काथो १२, ६, ९.
 स-प्र(वा)>ज- -जाः आपथ २,
 २२, ८; हिध २, ५, १३८.
 स-प्रजापतिक- -करय आपथ २,
 ५, १०; बाध ३, १, १; काय ४१,
 २३; -कर्म्यः बौधो ५६, १३।

1. a) सप्ताहारे द्विध.। b) विप. (भेदक-).। c) विप. (अभिप-).। तदित्यार्थे द्विस. > वन.। d) पठ.।
 e) = तीर्थ-विशेष-। f) विप. (प्रवर-).। g) वैप २, ३४. द.। h) पाठे. पृ २५५ ७ द.।
 i) पृ १४६८ म द.। j) व्यप.। k) सावल- (द. पाणम.)। l) शर्पः !। m) = साम-विशेष-।
 n) वैप १६.। o) सप्ता. वि ५, ५, ४ मा २२, २२ प्रय. माय १३, १, ९, ५ तैमा ३, ८, १३, २ सुतिः इति पाठे.।
 p) = यत्-। q) = ३७.। r) पाठे. पृ २५६ म द.।

स-प्रणव, वा- -वः शांश्री ७, २६, ५; -यम् आश्री ५, ९, १०; आसिष्ट २, ३, २: ११; ४: १; ५, ६: २०; ७, ४: २७; वीष्ट १, ६: १०; -वाः वीष्ट ३, ३, २३; वाध २६, ४; शंघ १०७; वीध ४, १, २९; -यम् आश्री २, १७, २०; ४, ८, २०; शांश्री ५, ६, ४; ११, १; ७, १६, ५; वीष्ट; -वे माश्री ८, १८, २; वीश्री ९, १: १५; द्विश्री ५, ४, ६२; -वेन वीष्ट २, ११, १७.

स-प्रतिग्रहण-सम्प्र- -न्यान् द्विश्री १०, ७, १६.

स-प्रति (क) शा- -शा नाशि २, ७, १०.

स-प्रतीकाश- -रास्य आष्ट ३, ९, ११.

स-प्रतोद- -दः शांश्री १४, ७२, ३.

स-प्र(था >)थ- -०थ आश्री ५, १८, २; वीश्री २, १८: २०; ३, १४: १३; माश्री ५, ११, ७; वीश्री १, १४: १६; द्विश्री ६, ५, १६.

स-प्रथ- -वः क्रम २, १०, १८१.

स-प्रथस्- -थः मा ४, ३२, ३; -०थः माश्री १, ६, २, ७, १४; वाश्री १, ४, ४, १, ५, ४, २७; २६; -थस् वीश्री १५, ५: ४; -थाः आश्री ३, १०, १६; १०, ६, ६; शांश्री; आश्री १६, २५, १७; द्विश्री ११, ६, २१; वापस २, १५, २, भाष्ट २, २: ७८.

द्विष्ट २, १७, १; वा ६, ७, ३.

स-प्रथस्-तम- -मः आश्री १४, २९, १; -सम् आश्री ३, ४, १; शांश्री;

स-प्रदेश- -सम् धन १, ६, ४.

स-प्रदोष- -यम् वीष्ट ३, १, १६; आपस १, ९, २२; १०, २८; द्विष्ट १, ३, २३; ५५.

स-प्रपञ्च-> -ञ्च-परमज्ञा (ज्ञ-प्र) मिधापि (न) शी- -नीम् शुभ १, ६२१.

स-प्ररे(क) का- -काम् वीश्री ११, ११; २; १७, ३५; ३६: ८.

स-प्ररो(ह) हा- -हाः वीष्ट ३, २, १०; २३; ३५; ४८.

स-प्रवार्य- -यं शांश्री ५, १०, ३६; १२, २; काश्री १०, १, १९; २६, २, १.

स-प्रवाद- -दः शश्री ५, ३०.

स-प्रस्तर, रा- -रः माश्री ८, १६, २१; -रम् माश्री २, ३, १, ११; -राम् आश्री ३, ५, ४; माश्री ३, ५, ८; माश्री.

स-प्राण- -णः वाधुश्री ३, ४२: ११; ४, २०: ४; -णम् वाधुश्री ३, १३: ८.

स-प्राणायाम- -मः वैष २, १०, ४.

स-प्रदेश- -नेन वीष्ट १२: ३.

स-प्राय, वा- -यम् निष्ट ८, ८: २३; -यः निष्ट ३, १२: २३; ८, ४: १५; -ये निष्ट १०, १०: १७; २१; १२: १; २; -यी निष्ट ७, ८: २४; ११: २४; १२: १७.

साम्राज्य- -व्यान् लाश्री १०, ७, ७; निष्ट ९, २: १३.

स-प्ररो(ह) हा- -हाः वीश्री २, ६: २१; २३; १२: ६; वीष्ट २, ५, ३५; ६६;

स-प्रैष- -यम् काश्री १९, ३, ८; -ये आश्री ३, १, २१; शांश्री, १, २, २०; ५, १६, २.

स-प्रफ- -फम् लाश्री ६, ११, ४; क्षुम् १, २: ११; ५: ३; ६: २४; निष्ट ६, ६: १६; -प्रफ क्षुम् १, ८: १२; २, ५: २२.

स-प्रकालेय- -याभ्याम् क्षुम् १, २: १८; ५: ६; ६: २७.

स-प्रपौष्कल- -ले क्षुम् १, ४: ३२; ५: ११; ६: २.

स-प्रशुष्य- -ष्ये क्षुम् १, ८: ११; निष्ट ६, ६: १५.

स-प्रसू, सलीभवति निष्ट ६, ६: १५.

स-प्रसू- -वः निष्ट ६, ६: १६.

स-प्रफ- -फः वाप १, २८८.

स-प्रफल- -लम् शम ३, १; श्रे ५, ८५; -लाः शम ६८, ९, २०; -लेः शम ६२, ६, २.

स-प्रफे(न) न- -नानिः वीष्ट १, २, २३; वीष १, ५, १४.

स-प्रवृत्त- -वृत्तः वा ६, ३, ८५; -वृत्तः वा ४, २१; शम ८, ८; -प्रवृत्तः आश्री १४, ३०, ४; द्विश्री १५, ७, १९; -प्रवृत्त शम १५, ८.

स-प्रवृ- -वृः वृ ३, ८५.

a) = स- । b) पूष = सप्तमान- इति मासम् । c) उष, मद्यो वत् । d) वैष २, २६. इ. । e) वशि. वैष १ सप्तम्-> -यः द्वि. इ. । f) = शपि-विशेष- । स-प्र इति MA. । g) वैष १ इ. । h) सप्ता. श्वः (स १, २२, १५ मैत्रा २, २, ७ च) <> थाः (मा ३५, २१ प्रष्ट. मैत्रा १०, १, १० च) इति पाठे. । i) फां. वैष १ सप्तम्-सप्तमः द्वि. इ. । j) का. > उष. । k) सा प्रायाद् इति पाठो यनि. शोषः । l) = सप्त-विशेष- । m) = शपि-विशेष- । n) फेनाभिः इति मै. ।

सवर-दुध(>)धा- -धाम् बृदे
 ३, ८५; -वायाः श्रवा १,
 १०३१.
 स^०वर्हिस्- -र्विः कौट ७३, १३.
 स^०वल- -ला शीट ६, ५, ५.
 स^०वल-वाहन- -नः अण ६४,
 १०, ७.
 स^०वाध- -वाधः वीथी १३, २५ :
 ५; माथी ५, १, १, ६; ५, ७३;
 २, १, २५; आपर्ग.
 स^०वाधव- -वाधम् वीथि २, ३, ७.
 स^०वी(न >)जा- -जाम् आभिमृ
 २, ७, १० : १३.
 स^०शुद्वु(व >)दा- -दाभिः शीघ
 ३, ५, १४.
 स^०ब्रह्मक- -काः आथी ३, ५, १.
 स^०ब्रह्मचारिन्- पा ६, २, ८६; पावा
 ६, ३, ८५; पाग ५, १, १३०;
 -रिणः गोरु ३, २, ४६; शीट
 १, १४ : १३; -रिणम् कौट
 १४१, ३१; -रिणि आट ४, ४,
 २६; कौट ३, ९, १३; शीट ४,
 ७, १३; पाट.
 साम्यचार- पा ५, १, १३०;
 पावा ६, ४, १४४.
 सन्धवारि-पीठसर्पि-कलापि-कुमुमि-
 रैतिलि-आजलि-काल्लि-शि-
 लालि-शिल्लि-सूकरसभ-सुप-
 वन्- -वैलाम् पावा ६, ४, १४४.
 स^०ग्राहण- -गानि आभिमृ १, २,
 १ : १; ११; १३; १६; वीथि ३,
 १७, २१-२४.
 स^०ग्राहणस्पर्य- -त्याः शीथी १०,

५, ७, १, ५.
 सभ- -भिन वैथीका २७.
 सभ-बौक्कल- -लाभ्याम् वैथी २२ :
 ११.
 स^०भरस- -रसः माथी ६, २, ५,
 २३१.
 सिभयमतिम्- शंघ ११६ : ५३.
 स^०भस्मक- -कम् अण्वाव १, ५.
 स^०भस्म-पौष्ट- -ण्डाः अण
 ५१, ४, ५.
 समा- -शवगो २, २, २३०; पा २,
 ४, २३; कि ६३; -मा द्विथी ३,
 ३, १४; पाट ३, १३, ९; ३; कौट
 ३८, २७१; आपव; -भ्यः वाघ
 १२, ४०; आपव १, ३, १२;
 ३२, १९; द्विष; -मानाम्
 कौट ११, ८; -माग्यः शुव
 २, २६४१; -माम् आपथी
 ५, १८, २; वीथी २, १८ : २०; ३,
 १४ : १३४४; माथी; -भायाः
 आपथी ५, १९, २; वाथी १,
 ४, ३, ३२; द्विथी; -नायाम्
 आपथी ५, ४, ७; वीथी ५, ८ :
 ३१; १४, १८ : १६४४; माथी;
 पा ६, २, १८; -भायै वैताथी
 ६, ५.
 समा-गत- -तः वीथि ३, ५, २.
 समा(भा-आ)व्जाव- -विजान
 (न-२श्वा)ध- -थिः आभिमृ
 २, ३, ५ : ४.
 समा-निकष-कट-स्वस्तर- -नम्
 आपथ १, ८, १३; द्विष १, २,
 १०१.

सभा-पवि-(>सामापव- पा.)
 पाग ४, १, ८४.
 स^०समा-पाल- -लाः आपथी ४, २,
 १; माथी ४, २, ४; वैथी ३, २ :
 ७; द्विथी १, २, ५.
 सभा-प्रवेशन- -नम् पाट ३, १३, १.
 सभा-भागधान- -नेषु कौट ३८,
 १५.
 सभा-नय- -न्ये वैथी १, १४ :
 १९; नाशि २, ८, १९.
 समा-वृ- -वार् वीथी ३, २२ :
 १५१.
 सभा-विजय- -यम् वाधुथी ३, ११ :
 २, ५.
 सभा-शयन- -नम् आभिमृ २, ४,
 ७ : ८.
 सभा-सद- -सदाः शीथी १६, ९,
 १६१; १७; वीथी २, १८ :
 २११; द्विथी; गो २, ४; वीथ
 १, १०, १००; विष ३, ७४;
 -सन्नवः आपथी ५, २०, ३;
 माथी ५, १२, १०; माथी १, ५,
 ५, १५; नाथी.
 समा(भा-आ)सन- -नम् काथी ४,
 १५, ३१.
 स^०समा-साह- -सहम् वीथी १७,
 ४१ : १८; आभिमृ १, ३, ४ :
 १२; द्विष १, १०, ६.
 समा-स्थापु- -पुः या ३, ५.
 सभेय- पा ४, ४, १०६; -यः
 शीथी १२, २०, १३१; -यम्
 शीथी ८, १८, ११०.
 सम्य- पा ४, ४, १०५; -म्य

a) वैप १ द.। b) = यस-। c) उप. दस.। d) = २स-। e) बाण्ठ इति इ.। f) उप.
 = १माश्रण-। g) = साम-विशेष-। h) = मरुद-विशेष-। जपु २१९, २२ सरमम् इति, शक. समरः इति।
 ३) पस.>कष.>पस.। j) दस.। निषय- = समीकरलोपकरण-। k) दस. उप. = महापनश-। l) पाभे.
 वैप १ समासाहम् वि ४, १, ९ टि. द.। m) = उवा. वि ५, ५, ४। मा २२, २२ नाव १३, १, ८ प्रवृ. सभेयः
 इति पाभे.। n) वैप १ निर्दिष्टयोः समापेसा द.।

आपथ्री ४, २, १; ६, ३, ४;
 भाथ्री ४, २, ४; हिथ्री; -म्यः
 आपथ्री ५, ४, ७; वेताथ्री ६, ५;
 वैथ्र २, १८ : ३; -म्यम् वाथ्री ४,
 १, १८; आपथ्री ४, २, १; ५, १८,
 २; ६, ३, ४; वीथ्री; अथ ७, १२,
 -म्यस्य काथ्री ४, १५, ३२; दिथ्री
 ३, ३, १४; अथ २३, १०, ४;
 वैथ्र २, ५, ७; -म्याः वीथ्री २,
 १८ : २०^१; दिथ्री ६, ५, १६^१;
 अथ ५१, ४, २; -म्यात् माथ्री
 १, ५, ५, ५; वाथ्री १, ४, ३, ३४;
 वेताथ्री ६, ५; -म्यानाम् विथ्र ५,
 १८०; -३थे माथ्री १, ५, ५, १०;
 वैथ्री २, ६ : ६; वैथ्र ४, १४ : ७.
 सम्भ्या(म्य-अ)म्या (मि-आ)प-
 त्तन-नाम् वैथ्री १, ३ : ५; -ने
 वैथ्र २, ५, ६.
 सम्भ्या(म्य-अ)वसथ्य- -व्ययोः
 आपथ्री ५, १, २; वीथ्री २, ७ :
 १४; १५; २०, १७ : १; १६;
 माथ्री; -ध्याम्याम् वामिथ्र ३,
 ५, ८ : ११; वीथ्र १, ७ : १२;
 दिथ्रि ७ : ३; -व्यौ आपथ्री ५,
 १७, १; माथ्री ५, १०, १; १९,
 ४; ६, ८, १०; वैथ्री.
 स^०भा^०म^०->√सभामि, स^०समा-
 यति अथ ९, ६(६), अथ ३, ४, १.
 स^०भागेयम्^० वाथ्री ३, ११ : २; ४.

√समाह् पाथा. चुरा. उग. प्रीतिदर्श-
 मयोः प्रीतिमेतन्नयोश्च. -
 स^०भा(यां>)य^०-य^०: कथ्र ३, १, २;
 वैथ्र ३, १, २; वृदे ३, १४३.
 स-भाव- रस-द्र.
 सिसभूत- -ताः वापथ्री ४, ११ : १२.
 स^०भूमि- -मि^० काथ्री २१, २, १३;
 आपथ्री २०, २४, १२; २५,
 २१; दिथ्री १४, ६, २८.
 सभूयस्^०(->साम्थि- पा.) पाग
 ४, १, १६.
 सिसभ्रातृव्यवत्तः^० दिथ्री १७, १, ८.
 स^०सम्^० वाथ्री ४, १३, ७^१; काथ्री ११,
 ९, १^१; काथ्री १७, १२, ८^१; वीथ्री
 १३, ३५ : १८^१; लाथ्री ७, १३,
 ७; वेताथ्री २४, ११^१; अथ
 ३२, १, १९; ४६, ६, २; वृदे ६,
 ७१^१; अथ २, २२-०^१; वा १,
 ३७^१; १२, ७; अथ ३; पाग १,
 ४, ५७, ५८; समः पा ६, १, १३;
 ८, ३, ५.
 √सम् पाथा. भा. पर. ब्रह्मक्यो.
 √सम्^०
 स^०समा^०- पाग १, १, २७^०; ३७^०;
 ४, २, १३८; ६, ३, ३४; पावाप
 २, ३, १८; -मः वाथ्री १, १,
 ३५; वीथ्री ५, ११ : २४; लाथ्री
 ६, ५, १२; १०, १५, १०;
 वृद्ध ३, १३ : १३; निथ्र; -मथ्र

काथ्री २, ४, ३३; ५, १५^०;
 आपथ्री १, १६, ८^०; २, ७, ३^०;
 ६, ८, ८^०; वीथ्री १, ४ :
 २३^०;
 माथ्री २, ७, १^०;
 वाथ्री; वैथ्री ५, ४ : ७^०;
 माथ्र २, १४ : ७^०;
 ११, ४^०;
 ८^०;
 -मस्यस्य आपथ्री ६,
 १७, ८; वा ५, २३; अथ २,
 १६; -मसिम् वा ५, २३^०;
 -मस्य वाथ्री ३, २, ६, १९;
 आपथ्र १, १०; निथ्र ४, २^०; वा
 ५, २३^०; पावा ५, २, ६;
 -मा आथ्रि ३, ५, ५ : ५;
 माथ्र २, १४ : ४^०; १०^०;
 दिथ्र २, ११, ४^०;
 -माः वीथ्री १७, १२ : ६; ७; ८;
 २९, ८ : २५; माथ्री; -मात् अथ्र
 ३, १३ : २; १२; -मात् आपथ्री
 १४, ६, १; ९; वीथ्री; गोथ्र २,
 १, ५^०; -मानाम् वीथ्र ५५, ५
 पा १, ३, १०; -मानि आपथ्री
 १४, ६, ११; वीथ्री १५, १४ :
 ६; २४, २५ : ९; २६, ४ :
 २९; वाथ्री; -माम् काथ्री १,
 १, २३; वीथ्री २, ६ : १०^०;
 १ : ९; १०, १ : ८^०;
 -मायाम् शंथ ३३२; -माथ्र
 वैथ्र ३, ९ : ८; मोथ्र २, ३, २१;

a) विप. (सुत्ता-). सात्थ्येदेकीयः प्र.। b) = अथ.। c) वैथ्र १ द.। d) सभागाधेयम् इति भाष्यम् (डि-
 संस्वरुः टि.)। e) वा. किति.। f) व्यप.। संभूयस्- इति पात्र. पावि.। g) 'मः सभ्रा' इति पाठ. इ. सु. सप.
 आपथ्री २२, १, ६ 'मस्तुभ्रा' इति। h) सम्भ्यागाधेयं अथ.। i) वैथ्र १ अथ ५, ७, १ टि. द.। j) सपा.
 वेत्त्रा ३, ७, १३, ३ श्रुम् इति पथि.। k) समिधा (अ ८, ४४, १) इत्यस्य पूर्वतः द.। l) इ १९३१० द.।
 m) वैथ्र १ निर्दिष्टयोः समादेशः द.। n) रत्ना.। o) सहायं अथ.। p) समं बिलम्->उपपिठम् इति द्विथ्री
 १, ७, ४६ पथि.। q) नाप. ('लोक-). 'वर्णमय, या->पथि.। r) 'यो यो लोकसुखवासस्तत्साऽऽश्रयो भवति,
 तस्य तस्याधिष्ठातृदेवोऽभ्यादितास्य (अथस्य) उपद्रष्टा भवति' इति वा.। s) सपा. अन्तर्दिष्टं समम्->आथ्रि ३, १,
 २ : १७, २, ३ : ६ वीथ्र २, ८, १२ अन्तर्दिष्टं-समम् इति पथि.। t) मानसुथ्र इति विशेष-। u) पथि. इ
 १६३४ ० द.। v) पथि. इ १२५५ b द.। w) सपा. काथ्र २, १५ सर्वतः इति पथि.।

-मे काथी १२, ६, ८; काथी १, १७, १२; काथी २२, ३, १६; २५, ७, १५; आफथी; पूया ५, २३; १०, ५६; -मेव काथी ४, १, २०; लाथी १, ११, २८; गौष ७, २१; या १४, ६; -मेपु लाथी ६, ५, १२; निस् ४, ५: २१; विष ८, २६; माथि; -मै: अप २८, ३, ३; -मौ काथी २, ३, ३०; कापथी १, ११, ६; २४, ५; २९, १२; भाथी. साम-> 'म-वर्ष'- -तः श्रमा ७, १; -दाः श्रमा १, ६०; -शान् श्रमा १३, ३१. १साम्य- न्यम् गौष १०, ६६; तैषा २४, ५; -न्येन वेजो १४. साम्य-ता- -ताम् आनिष् २, ६, ५; १५; १८; गौष २, १, १४; १६०. सम-चतुरश्र, श्रा- -शः बौधु ८: १३; १५; -शम् आनिष् २, ३, १: ४; आपथु २, १५; ३, १; बौधु; -शस्य बौधु १: ३१; विष्णु १, १५; -श्रा बौधु ३: २६; -श्रा: वापथु २, १४; ११, १; बौधु ७: ८; १६: ८; विष्णु: -श्रात् बौधु २१: १०; -श्राणि: बौधु ८: ८; -श्रात् वैथी २, ४: ३; बौधु २: १४, २०: १७. सम-चतुरश्र-क (त>) पा- -वाया: बौधु ३: २८; ३१. सम-चतुरश्र- -सम् श्राप २, ८, ९; काथु १, २१; ३, २४;

-द्यस्य काथु १, १६; २, १२; -स्तानाम् काथु २, २१; -स्तानि काथु ६, ७; -ते काथु ४, १०. सम-तट- -> 'ट-सम-वर्षमावक-वैदेह'- -दा: अप ५६, १, ४. सम-वर्- -न: छसू ३, १३: २; १३; १३. सम-ता- -ताम् छसू ३, १३: ६; ७; निस् १, ८: ११; गौष २, २, ६७; ४, ६, ९. सम-वैल- -ला: कौत् १२२, १; अप ७०, ६, २; -लेपु कौत् ९३, २१. सम-व्य- -व्यात् काथी १, ४, १८; ५, ८, ७, १, २३; ४; श्रमा. १सम-दूषण- -णम् अप ३३, ५, ६. सम-द्विगुण-साहस्रा(स-श)नन्त- -न्तादि गौष ५, २१. सम-घा- -माथी १, ७, २, १७; ३, १, १८; गौष २८, ८; १६. सम-ह्य- -ते विष ४, ११; -ती विष १०, ६. सम-नि-स्वन- -न. १ माथि १०, १०; याथि २, ७४. सम-नि-स्वन- -न. १ माथि २, ४, ८. सम-पञ्च- -पाग २, १, १७. सम-पञ्च-पुच्छ- -च्छत् बौधु १०, ११: ७. सम-वदाति- -पाग २, १, १७. सम-पर्षाण- -षी: लाथी ६, ५, २१; निस् १, ८: २६, ३७. सम-पद- -पाग ६, २, ८१. सम-प्रयोग- -मे लाथी १०, ८, ४.

सम-प्रेप्सु- -प्सु: गौष १२, ५. सम-भूमि- -पाग २, १, १७; -मौ काथु ७, ३. राज-मप- -पागम ३१७. सम-मात्र- -त्र: वैशि ३४७; -त्रयो: मात् ३, ९. सम-मात्रा-> 'त्रिक- -कौ वैशि ३७. सम-सात- -नयो: वैथी १३, ९: ७. सम-स्यदानि- -पाग २, १, १७. सम-थि(ल>)ला- -लाम् काथी १७, १, ११; २१. सम-भूमि- -पाग २, १, १७; -नि काथी ६, ३, ११; कौत् २५, २४; -नि. १ वैशि १, ४: ५; -मिस् द्वि १६: ९. सम-धुग- (>सामधुगीन- पा.) पाग ४, ४, १९. सम-रथ- -वा: वैथ ४, ४, ९. सम-रथ- -नम् निस् ६, १: २. सम-रूप- -पागम ३१७. सम(म-श्रा)च- -र्चागात् काथी ७, १९, १८. १सम(म-श्रा)र्ध- -र्धयो: पा २, ३, ५७; ३, १, १५२; -र्धन्याम् पा १, ३, ४२; ८, १, ६५. सम-लोष्ट(ष्ट-श्र)वम-वाजन्- -नः शंष २०७; -ना: वैष १, ९, ७. सम-वत्- -वत् वाथुथी ४, २, १: १. सम-वर्णा(र्ण-श्रा)वोदान- -ने विष ५, ३५. सम-विमक, का- -कस्य काथी १६, ८, १६; -का: काथी २३, १, १०.

a) = संधि-विशेष- । वत्. उप. भाप. । b) स्वार्थे प्र. । c) सहाम् इति संस्कृते: टि. । d) वत्. । e) = देश-विशेष- । वत्. । f) हस. । सम- श्रा: १ । g) स्वन्तदूषणम् इति संस्कृते: टि. । h) धा प्र. वत्. (पा५, ३, ४२) । i) परस्परं पाथे. । j) णः इति छासं. । k) ह. पागम. । l) वत्. > दृष्ट. । m) वत्. उप. = १मान- । n) वा. किति. । o) उप. = धुग- । p) परस्परं (पावा ६, १, १४) प्र. । q) सवर्णा इति जीसं. ।

सम-विभाग- आ: नित् ६, ८:
 १३; १०, ५: ५; ८.
 सम-विषय, मा^१- आ अथ ११, ३;
 १५, ५; १८, २; -मा: अथ २,
 १५; -माणात् नित् १, १: ११;
 -माणि बौश्री २७, ४: ३०.
 सम-वृत्त^२- -त्तम् वैश्री ११, ७: ९.
 सम-वैयर्थ्य- -स्यम् लाश्री ६, ५,
 १७; मांसु ४, १, २१०.
 सम-वाप (ः) आपश्री ८, १४, १९;
 १६, ३; १३, १८, ४४४; भाश्री.
 सम-श्रद्ध^३- -ऋ: अथ ५०, ६, ३.
 सम-संख्य-स्य- -त्वात् पावा १,
 २, २७.
 सम-संख्य-प्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा ८, ४, ६५.
 सम-संख्या-प्रतिषेधा(ध-अ)
 र्थ- -र्थ: पावा ४, ३, १.
 सम-संख्या(ख्या-अ)प्रसिद्धि- -दि:
 पावा १, २, २७.
 सम-संख्या(ख्या-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा १, ४, १०१; २, ४, ८५;
 ३, ४, २; ८२.
 सम-संप्रधारणा- -नायाम् पावा ८,
 १, १२.
 सम-सिद्धान्त^४- -न्वा: आश्री १२,
 ८, १५.
 सम-सुस्वर^५- -रम् शैशि २२६.
 सम-सू(च->)का^६- -क्तम् शाश्री
 १८, १, ६.
 सम-सूत्र-निरण्णक^७- -क: फाह
 ७, ३.
 सम-स्थ- पाय ५, १, १२४.

सामस्थ- पा ५, १, १२४.
 सम-स्वित- -त्वेरकाश्री १६, ७, ३२.
 सम-स्वत^८- -ने अथ २४, ५, १.
 सम-स्व(र->)रा^९- -रे श्रद्धा ३, १८.
 समो(म-अं)श- -सम् छेदे २, १४४.
 समो(म-अ)श्रद्ध^{१०}- -श्रद्धं माश्री १,
 ८, २, ३०^{११}; -श्रद्धं आशिष्ट ३,
 १, १: ३^{१२}; ३, १: ७.
 समात्-स(म->)मा- -मा नित्
 १, १०: २०; -माय् लाश्री ६,
 ६, ५; नित् १, १०: २८.
 सामासस्थान्य^{१३}- -स्यम् लाश्री ६,
 ६, २.
 समा(म-अ)नुपपत्ति- -त्तौ लाश्री
 २, ५, ९.
 समा(म-अ)न्तर^{१४}- -रान् काश्री ८,
 ६, १९.
 समा(म-अ)न्तराल^{१५}- -लान् वैश्री
 १४, १२: १०.
 समा(म-अ)हंमासा(स-अ)तिव-
 -त्तिम्- -त्तिषु लाश्री १०, १४, ९.
 समा(म-आ)र्ष^{१६}- -र्ष: कौश्र २,
 २, ३^{१७}; ४.
 समा(म-आ)र्षेय^{१८}- -यणात् वाश्री
 ३, २, १, २१.
 समा(म-अ)पदान^{१९}- -नौ काश्री ५,
 ६, १७.
 समा(म-अ)तन- -नम् अथ १२.
 समा(म-अ)सम- -माग्यात् पौष
 १७, १८.
 समी^{२०}/कु, समीकरोति काश्री १६,
 ३, २८.
 समी-करण- -याव अथ ३, ३०.

समी/भू > समी-भक्त्- -क्त:
 आपव २, १७, १५; हिप २, ५,
 -२३४.
 समीय- पा ४, १, १३८.
 समो(म-उ)वृक्त्^{२१}- -क: वौश्री २,
 १३: २५.
 समो(म-उ)पवृक्त्^{२२}- -क्ते लाश्री
 २, २, ३, ३५.
 संसम->समा^{२३}- -मा वा २, ४१;
 ४२; -मा काश्री १६, १, ११^{२४};
 आपश्री १, १०, १२^{२५}; १६, ७,
 २१^{२६}; १२, २३, १२; वौश्री;
 -निनाताम् अथ ४६, ४, १; ५, १;
 अथ १, ३५^{२७}; वा ११, ५^{२८};
 -निनात्य: आपश्री ३, १४, १;
 गाश्री ३, १३, १; दिश्री, -नाम्
 आपश्री ५, ८, ८^{२९}; वौश्री २,
 १५, १०^{३०}; १४, १३: २३; १६,
 १३: ५; ६; दिश्री; -नाम्
 ७-नाम् वा, पावा ५, २, १३;
 -नाया: पा ५, १, ८५; -मायात्
 कौश्र ९३, १०; -मायात्
 -नायात् पावा ५, २, १२, -माय,
 -मे कौश्र १०२, ३.
 समांसमीना- -ना पा ५, २, ११.
 समोग- पा ५, १, ८५.
 सम्-प्रकार- -र: कौशि ७४.
 सम्भक्त- सम्/अन्त्र द.
 सम्-अन्त^{३१}- -पाय ५, ४, १०७; -शम्
 शश्री १२, ३, २४^{३२}; वौश्री
 ३, २०^{३३}; काश्र ४३, १; अथ
 ४५५; आपव; -शम् लाश्री ४,
 ११, २२^{३४}.

a) कस. । b) यत्. । c) समवैयर्थ्यम्, अतः > समवैयर्थ्यतः इति कौश्र. प्रकाशं. । d) कस. > वय. । e) वच. > वच. उप. < नित्/रम्पृ । f) पू. = १०४६. । g) सप्र. काश्री १, १, १९ अथयन्त्र इति पाठे. । h) सप्र. दिष्ट २, १०, २ समान्तर इति पाठे. । i) स्वार्थे प्र. उभयपदद्वयः (उ. भाष्यः) वेत्. भाष्यम् तासामात्, सा इति । j) सप्र. अथ २, २, ६ समानार्थेः इति पाठे. । k) = संस्कार- । l) वै १ द. । m) = यत्- । n) परस्परं पाठे. । o) पाठे. वै २, ३६. समक्षम् गोमा २, १, ७ दि. द.

समक्ष-दर्शन- -नात् विध ८, १३.
 समग्र, प्रा^०- पाग ५, १, १२४; -प्रग्र
 अय ४१, ४, ५; गीय ९, ६७;
 वृदे २, ७६; -प्रस्य विध १, ५३;
 -प्रा: दिष्ट १, १०, ६७; अय १,
 ७, ७; -प्रेण विध २०, २१, २२.
 सामग्र्य- वा ५, १, १२४.
 समग्र-धन^०- -नत् विध ५, ८.
 समग्र-व(लस) > वसा^०- -वसा: अय
 ५७, ४, ४.
 समप्रा(प्र-अ)हृत्कुलि^०- -लि: वीथी
 २५, १०: २३.
 ईसम्-अङ्ग, ह्वा^०- -ङ्ग: दिधौ ७, ३,
 २१; -ह्वा दिधौ ७, २, १६;
 -ह्वात् दिष्ट २, १०, २०.
 २सम्-अङ्ग^०- > ण्दिन्- -दि काथी
 २, ३, १२; ७, ९, ४.
 सम्/अञ्च्, अञ्च्, समचन्ति वीथी
 १५, १६: ७.
 सम्(मि-अ)ञ्च्, अञ्च्^०- -मीषा: वीथी
 १८, २५: १६; -मीषा वाधूथी
 ४, ११: ५; ७; ९; -मीची
 वीथी १०, ५२: २६१; १३,
 २६: ४१; माथी १०, ५, १३;
 -म्यक् काथी ८, ५, ४; ११;
 १७, ५, ७१; आपथी ४, ५, ६;
 १७, १८, ११; माथी; वृदे
 २, २०; शुभ्र २, १७०; ११;
 -म्यस्र: आपथी १, ८, ७; १;
 वीथी १४, ३८, ५; ६; १५,
 २७, ११; माथी; -म्यस्रम्
 वीथी ११, ९, १; वीथी १३;

३५: १८; अयं.
 समीची^०- -वी आपथी
 १२, २०, ४१; १६, १४, ६; १७,
 २०, १४१; वीथी; -वी: ऋषि
 ५, ११, ६; २१, ९, १५; वीथी २,
 १६: ३६१; माथी; -चीम्
 वाधूथी ४, १५: ६; -ञ्चा
 ऋषीथी २८, १: १२; २: ११.
 ऋषीसमीची^०- -अयम् प्रागिष्ट
 १, १, ३: २५; दिष्ट १, ५, ११.
 ऋषीसमीचीन^०- -नादि दिधौ
 ११, ७, ५८.
 सम्ग्र-पाठ- -वत्स्य याधि २, १८.
 सम्ग्र-प्रतिप्रादीवृ- -नत् (:)
 आपथ २, १५, १२; दिष्ट २,
 ३, ४६.
 सम्ग्र-ज्ञात- -त्वेन शुभ्र ४,
 २२२.
 सम्ग्र-भक्ति- -दिदक्षु- -क्षव:
 वृदे ३, ७३.
 सम्ग्र-वर्ण-प्रयोग- -भोग नाधि
 ४, ८; नाधि २९; नाधि २, ८, २१.
 सम्ग्र-विगीत- -त्वा: गीथ ९,
 ६१; -त्वात् आपथ १, २०,
 ८; २, २९, १४; दिष्ट १, ६, २२.
 सम-चतुरधर- -धर- १सम-६.
 सम्/अञ्च् > सन्-भन- वा ३, ३,
 ६९.
 सम्-ज(ज्व) > ज्वा^०- वा ३, ३, ९९;
 -ज्वापात् कौष्ट १२०, १.
 सम्-ज्ञान- -जम् माथी ११, २१,
 २०; भाव ३, ६: २४; आपथ १,

३२, २०; दिष्ट १, ८, ६२; -जा:
 अय ६४, ७, १; -जात् आपथ
 १, ३, १२; ३१, १६; दिष्ट १, १,
 ८५; ८, ६१.
 सम्/अञ्च्, समहृक्ते कौष्ट ११२,
 ११; समनक्ति काथी ३, २, २; ६,
 ४, २; आपथी; समस्रते दिधौ २४,
 ३, ५१; वा १२, ७; समस्रन्ति
 वा ६, ३५१, समसाथे वीथी ७,
 १०, १२१; समगमि आष्ट १,
 २१, २१; ऋषीसमहृक्ताम् आपथी
 ४, १२, ३; वीथी १, २१: २७;
 भाथी ४, १८, १; वीथी ७, ६: १;
 दिधौ ६, १, ११; वैष्ट १, १९: १५;
 ऋषीसम्-हृक्ताम् आपथी ४,
 १२, ३; वीथी १, १५: २५×२;
 माथी; ऋषीसम्(हृक्ताम्) काथी
 ३, ८, ५; आपथी ४, १२, ३;
 वीथी; शुभ्र १, १४१, ऋषीसमनक्तु
 आथी २, ११, ३; वीथी ३, ७, ४;
 काथी; ऋषीसम्-अनक्तु आपथी
 १२, ६, ३; वीथी १५, ७:
 ११; दिधौ ८, १, ७०; ऋषीसम्
 (अनक्तु) आपथी १२, ६, ३; ऋषीसम्
 (अनक्तु) वीथी ७, ३: २५;
 ऋषीसमअन्तु आपथी १, ११, ३;
 आपथ १, ८, ९; कौष्ट १, ८, ५;
 वीथी; ऋषीसम् (अनक्तु) आपथी
 १, ११, ३; पाठ १, ४, १४;
 वृदे ७, १२७; ऋषीसमहृक्ते वाथ
 ५, ३५; शुभ्र ६, २०; ऋषीसमहृक्
 > हृक्ता काथी ३, ३, ३, ११;

a) वैष्ट १ इ. । b) पाथे. वैष्ट १ सुमप्रा: सि ४, ६, ९ टि. इ. । c) वत्. । d) पाथे. वृ २५४८ इ. टि. इ. । e) प्रास. । f) कनिद वा. किति. । g) पाथे. वैष्ट १ सुम्-स्रन्ति ले ४, २, ९, ६ टि. इ. । h) संयक् इति पाठः? सनि. शोषा । i) भावे व्यञ्च् इ. । j) 'यु' इति पाठः? सनि. शोषः (इ. दिष्ट.) । k) = सभा- । l) = सभा. समहृक्ताम् (वैष्टा ३, ७, ५, १० च) <> मा २, २२ प्रथ. माथ १, ९, २, ३१ वैष्टा ३, ७, ५, १० सुम्-हृक्ताम् <> समहृक्ताम् (वी ७, १०, ३, १ च) इति पाथे. । m) श्वक्ता इति पाठः? सनि. शोषः (इ. दिधौ.) ।

हिथी १, ७, ४०; सम्भव्यात्
वीथी २०, १४:१२; २८:४.
पुंसम्-अज्यते आपथी ५, ६,
३; हिथी ३, २, ५५; पुंसम्
(अज्यते) थाथी ४, ७, ४; वीथी
५, १०, ४; श्रया ८, ५०.
समज्ञयति पाठ १, ४, १४.
पुंसम्-अक- -क्तम् वाथी १, ३, ४,
१४^१; हिथी २, १, ३४^२;
७^३; वेताथी ४, ६७^३; कौष ६,
५७^३, ८८, ६७^३; अज्य ७, १८७^३;
-कात् वीथी २५, २:१८.
सम्-अज्य आपथी २, १८, ३; वीथी
५, ३:४४४; वापथी.
सम्-अज्यत्- -पुंसम् वीथी १०, ३४:
१^४; वीथी १८, १९:१^४; हिथी ११,
७, ५५^४; आपथी; कौष २, २६^४;
-अज्यत्: आपथी १५, ८, १०;
माथी ११, ८, १४; वीथी १३, ९:१०
सम्-अज्यत्- -ने वीथी २०, १४:
१२; २७:८४४.
समज्ञनी(य>)वा^१- -आ कौष
१, ८, ५; शौष १, १२, ५.
सम्/अञ्ज् (दुक्तानवे) > सम्-
ञ्जत्- -नम् मीम् ६, ७, ११.
समञ्जस्व- -स्वम् मीम् ७, २, २३.
सम्/अञ्जलि (<अञ्जलि-). सम्-
ञ्जल्यति वापथी ३, ८:५;
समञ्जल्येव वापथी ३, ८:६.
समञ्जि- पाठमी २, १, १५३.
सम्-तट- प्रथ. १सम्-द्र.
सम्/अत्, पुंसमत्सि वेताथी ३२,
९; ४१, १३; या १, १०.
समति^१- -नी कौषि ३२.

सम्-अति/क्रम > समति-क्रम-
-न्ने विध ५४ २९.
सम्-अती(ति/इ)>समती(ति-इ)-
व,ता- -तापि काण्ड ३९:६;
-तापाम् विध ९०, १९; २०;
-ते कौष ७३, ११.
समवीता(त-अ)चिस- -चि:
आपथी ६, १०, ३.
समती(ति-इ)थ्य वाघ १७, ६९.
सिमते हिथी २१, २, ६२.
सम्-तैल- -थ- १सम्-द्र.
पुंसमद्- -मथु आथी ६, ३, १;
आपथी १४, २३, ६^१; वीथी; वा
९, २०७^१; -मद् वा ९, १७;
-मद् वीथी १३, १९:६१^१; ११;
१८, १३:९; हिलो २२, ३, १४^१.
सिमदूषण- प्रथ. १सम्-द्र.
सम्-अधि(क>)का^१- -कार् अप
५०, ५, १.
सम्-अधि/गच्छ, समधिगच्छति
आपि ३, ११, ४:४; वीथ १,
१, १२; समधिगच्छन्ति,
समधिगच्छेत् शेष ३४२.
सिमधिचारयिपीत्^१ निधू १०, २:
२९.
सम्-अधि/स्य् > समधि-स्य्
शाथी १७, १६, ५.
सम्-अधी (वि/इ) > समधी-
(वि-इ) ल्य वीथ २, १२, ७.
समथ(वि-अ)थ- -नम् आपथ
१, ११, ११; हिथ १, ३, ६६.
सम्/अम्, पुंसमनिधि कौष १, १६,
३; शौष १, २४, २.
समान वीथी १४, ७:४१.

सम्-थनन- -नात् या ७, १५.
सम्-अन्व आपथी २, ७, १४४; वीथी,
१सम्-अन्व- पाठ १, १६, १५;
-ना: वीथ २, १८:४; -विम्-
हिथी १५, ५, २७; अपा ३, ४,
१; -नाय आपि २, ४, १०:
३३^१; ६, ७:२८^१; २९; वीथ:
-ने हिथी १५, ५, २७^१; आपि
२, ४, १०:३२^१; ६, ७:२७.
पुंसमान-थान- -नाथ्यम् वीथ
७२, ४२; -नी वाथी ३, ४,
२७; माथी १, ४, २, १२; वाथी:
१, १, २, १६; वेताथी.
पुंसमन्- -नम् अप ४८, १०५; निध
२, १७; वा ७, १७; -ना
आपथी १७, १८, १; हिथी
१४, ३, २०; या ७, १७^१;
२०; ९, १४; ४०^१; -ने वीथी
१४, ७:३; श्रुम् १, ९:१२;
या ९, १०:१४, १८; मापि ७८.
पुंसमन्^१ वा १०, ५७.
पुंस-मनत्- -नस: आपथी १, ६, १२;
१०, १२; ५, २०, ४; वीथी; -नस:
आपथी १५, १२; -नसो आपथी
७, १३, ६; ९, १०, ७; वीथी.
सम्-निस्थन- प्रथ. १सम्-द्र.
पुंसमनीक^१- -के अप ४८, १०५,
निध २, १७.
सम्-अनु/क्रम > समनु-क्रान्त-
-नम् अप ४३:४२.
सम्-अनु/दिश, समनुदिशति वीथी
८, ६:१७.
समनु-दिश वीथी ११, ६:३१;
१२, ७:४५.

a) पाठे. पु २५४९ । टि. द्र. । b) पाठे. वैष १ सुमदिग्ध मा १३, ४१ टि. द्र. । c) स्या. वै ५,
१६, ३ समन्वय इति पाठे. । d) = अञ्ज्- । e) विप. (समीचीन-). सस: प्र. वसं. (पाठ ३, १७७ इ. P. प्र.
प्रथ.; वैठ श्या. वा. क. सम् + अज्यत्- > यत्. इतीत् १) । f) = समवाय- । g) वैष १ द्र. । h) श्राव. ।
i) समधिष्ठा इति संज्ञकेः टि. । j) पु २५५० द्र. ।

सम्-अनु√हु > समनु-सृद्य वीथी
१४, १६: ५५५; वीथ १, ४,
४०.
सम्-अनु√नी, सम्-अनुनीवात्,
सम् (अनुनीवात्) वा १०,
७; वैश १, २०: ४१.
सम्-अनु-परि/सृह > समनुपरि-
सृह वैश १, १: २; १७: ६.
सम्-अनु/सू, समनुसंज्ञित वा
५१, ५, २.
सम्-अनु/लिपू > समनु-लिप्य वैश
५, ६: १७.
सम्-अनु/पाठा (<स्था) > समनु-
पाठ- -ता: काथी ९, ३, २०.
सम्-अनुपय- -न्यस्य काथी २, ५,
१०; आश ३, १, १; काश ४१, २३.
सम्-अनुप्य राज- -अस्य काथी
२, ५, १०.
सम्-अनुप्य-राजस्य- -न्यस्य काश
३, १, १; काश ४१, २३.
समन्त- -न्यतः वीथ ४, ३८; -न्यत्
काथी ६, ३, ५; १०; ५, २; १३,
३, १५; काथी; अथीका ८४;
काथी ८, ३, १६; काथी ४, ७,
१; निम् ९, ६: २१; -न्यत्
वीथ १, ३, २; काश १, ७, ११;
वाश: -न्यत् वीथी १२, १५:
१०; -न्यत् काथी ३, २, ३०: ३३.
समन्त-वसु(ः) वीथी २७, ४: २९;
वीथ ३, २, १५; काश.
समन्त-वैश्वस- -से निम् ४, १३:
३१.
समन्त-परिमाण- -नेन काथी १६,
४, ५; हिथी ११, ५२.
समन्ती/ह > समन्ती कार-राय

निम् ९, ६: ३१.
सम्-अन्तिक- -न्य वीथी २, २:
२४; २५, ५: ५.
सम्-अन्त्र, न्या- -न्यत् वीथी १३२;
वैश १, ११: २३; -न्यत् काथी
२, ४, १८.
समन्त्र-क, का- -क: विष २७, १४,
-कम् वैश ५, १३: ६; ७, ३:
८; अप २१, ७, १; वैश ३, ११,
३; -का: वीथ १, ४, १२.
सम्-अन्य- सम्/अन्य द.
सम्-अन्यु- -न्यतः माश १, ७: ११.
सम्-अन्वा(तु-आ) > गच्छ, सम्,
समन्वागच्छति काथी ४, ५६:
१; ४.
समन्वागमेव अप्राय ३, ८.
समन्वा- -न्यत् काथी ३, ८.
सम्-अन्वा(तु-आ) > सम्-अन्वा-
धान- -न्यत् वीथी १, १, ९, ८.
सम्-अन्वा(तु-आ) > सम्-अन्वा-
नयन- -ने वीथी ६०, ३१: २०;
२१, १५: २९.
समन्वा-वीथ वीथी २१, १५: ३२;
२५, ११: १८.
सम्-अन्वा(तु-आ) > रश्, सम्-अन्वा-
मेते वीथी १, २०: १५; १६,
८: १२; या १३, २०; १४, ७,
समन्वातमन्ते वीथी १, १८:
१०; १५, १७: २३५; वैश
१६, १२: १६; हिथी, सम्-अन्वा-
मेत् काथी ९, ६, २७.
समन्वा-रश्च, न्या- -न्यतः काथी
१४, १, ६; -न्या हिथी १६,
५, ३; -न्या: काथी ५, २, ६;
८, १३, २३; काथी, -न्या-

नाम् वीथी २१, १३: १; हिथी
१५, ६, ३६; -न्यायात् हिथी
२, ५, ११; काश १, ७, ३; ८, ९;
१४, ३; हिथ: -न्ये काश १, २०,
२; २२, १३; -न्येपु काथी ४,
१६, ४; काथी १३, ६, १०;
२१, ३, १२५५; वीथी.
समन्वा-रश्च-निष्पन्ना(ण-आ)
दि- -दि काथी १०, १, १५; ५, ५.
समन्वा-रश्च काथी ८, १३, २३;
हिथी १०, ८, ४३; १६, ५, ३.
सम्-अन्वि(तु-इ) > सम्-अन्वि(तु-अ)
य- -य. वीथी १, १, १, ६६;
मीत् ८, ३, १८.
समन्वि(तु-इ)व- -त: अप ६८, ४,
६; या १४, ६१; -ता: काथी
४, १५: १; वीथ ४, ६, २९.
सम्-अन्वी(तु-इ)श्, सम्-अन्वीक्षेव
निम् १, १३: १५; ९, ३: ३.
समन्वी(तु-इ)क्षमाण- -न्यत् वीथी
६, १, ६, १९; -न्या: काथी ४, २,
१७; काथी २, २, २६.
सम-पक्ष- प्रश्. १सम- द.
सम्-अभि/हु, सम्-अभि/वन्ति या
२, १०.
सम्-अभि/पत्, सम्-अभि/वन्ते निम्
४, ९: २०.
सम्-अभि/पत्, सम्-अभि/वन्ते अप
४, ६, ३; ६९, ७, २.
सम्-अभि/मन्त्रि (<मन्त्र-),
समन्त्रि/मन्त्रेव अप ७, १, ८.
सम्-अभि/सृह, सम्-अभि/सृष्टि वीथ
३, २, ६.
समन्त्रि-सृद्य वीथी ४, ४: ६; ५,
२: १५, ६: ५५५.

a) सप्त. श १०, ८५, २३ सूय- -निमी" इति पाठे. । b) = ४५- । c) वप. पठ. । d) परस्परं
पाठे. । जस्य इति काश. समन्वाख्या । e) वैश १ निर्दिष्टान्ता समावेश. द. । f) = साम-विशेष- । g) समाहिताः
इति निम्. ।

सम-अभि-वसु(आच्छादने) > सम-
 मि-वासन- नात् वौश्री ३, २४ :
 ७; २५, १६।८.
 सम्-अभि-व्या(वि-या) > सम्-
 मिष्ठा-हार- नात् काशी १, १०,
 २; ४, १, ३०××.
 समभिन्वाहार-प्रकरण- णा-
 म्यात् काशी १, २, ३.
 सम्-अभि-वसु, समनिसर्पन्ति
 द्विती ८, ४, ५१.
 सम्-अभि-वह > सममि-हार- -रे
 वा ३, १, १४१.
 सम्-अभ्य(मि-अ)वह > समभ्य
 (मि-अ)व्य वाध २१, १, २; ३.
 सम्-अभ्य(मि-अ)वह > सम-
 भ्यवह-वत् -त्तः शेष १३४.
 सम्-अभ्य(मि-अ)वह > समभ्य
 (मि-अ)वह विव १४, २; ७३,
 १२; २६.
 सम्-अभ्य(मि-अ)वह (क्षिप्ये),
 समभ्यवेत् वा १४, ६.
 सम्-अभ्यु(मि-अ)वह > समभ्यु
 (मि-अ)वह वौश्री १, १९ : ११;
 अण १६, १, ७.
 सम्-अभ्यु(मि-अ)वह > व/चि,
 समभ्युचीयते वैश्री २०, ३१ :
 ३; समभ्युचीयेत्स्व आपश्री ९,
 १, २; माश्री ९, १, २; द्विती
 १, १, ३५; १५, १, २.
 समभ्युच्-चय- -यः आपश्री ९,
 १६, ६.
 समभ्युच्-चय- आपश्री ६, १३,
 ३; १२, १८, १४, २१, २३, १३.
 सम्-अभ्यु(मि-अ)वह(प-वह), समभ्यु-

वेयात् ऋषा ११, ६९.
 सम्-अभ्ये(मि-आ-वह), समभ्येदि
 अश्री ४, ४.
 सम्-भय- प्रभू. १सम- द.
 समय- सम्-वह द.
 १समया^१ काठश्री १२, माश्री ५, ८,
 ९; ६, ११, ९; माश्री १, ६,
 १, २०; ४१××; वाश्री १, ५, २,
 २९; ६, १, ३०; वैश्री २, ४ : ३;
 द्विती ३, ७, ५५; ६, ५, १४; १३,
 ६, ३९; अण; पा २, १, १५;
 पाण १, १, ३७.
 समया(वा-अ)व्युपित^१- -ने माश्री
 २, ५, ३, ७; वाण २३, ७, ४.
 समया(वा-अ)व्यु^१- -व्यु^१ वाश्री
 १, ४, ३, ५; -व्ये माश्री ५, ८,
 १०^०; वाश्री १, ४, ३, १६^०;
 ५, २, ३०; ६, ६, २७.
 समया-निकषा-हा-वोश्री^१- -नेपु
 पाना २, ३, २.
 समया(वा-अ)व्यु^१- -व्ये माश्री १,
 ५, ४, १०^०; ८, ५, १०××; द्विती
 ३, ४, ३१^०.
 सन्या-व्युपित^१- -ने आपश्री ६,
 ४, ९; १४, ३, १; १५, १८, १३;
 वौश्री १७, ३ : ७××; माश्री.
 २समया, 'वो/वह सम्-वह द.
 सम-भुग- १सम- द.
 स^१-समभ्यु(व-वह) > ध्मा^१-ध्माः
 वौश्री २३, ३।९.
 १समत्- पाठव ३, १३१; पाण २, ४,
 ३१; ३, १, २७^०; -रम् वाश्री १५,
 १६, ११; -रे आपश्री १३, १,
 ११^१; द्विती ९, १, १०^१; विष

३, ४४; द्वे ६, ११५; ७, ५१;
 ऋषा २, ४३^१.
 सम-विन्द- -यम् विष ७८, ३.
 √समयं वा ३, १, २७.
 २समर- (> सामरेय- वा.) पाण
 ४, २, ८०.
 समरण- सम्-वह द.
 सम-रथ- १सम- द.
 सम्-अर्थ^१- -व्यम् वाध २, ४१, वौश्री
 १, ५, ७९; -वाध अण ५९,
 १, २०.
 समर्थ-ता- -ताम् अण ५५, १, ८.
 सम्-अर्थ^१, समर्थेत् अण ४, ३, १.
 समर्थ- १सम- द.
 समर्थी- सम्-अर्थ द.
 सम्-अर्थ^१ > २सम-अर्थ^१- -व्ये.
 आपश्री १, १, २७; २, ९,
 १२; विष; पा २, १, १^१.
 -व्यम् वाश्री ३, ५ : ३; ५
 वौश्री ४, ८, १३; -व्यम् पावा
 ४, २, १४०; -व्यः वाध ६, ४;
 २५; विष २०, २७; -व्यः
 पा ४, १, ८२; पावा २, १, १,
 -व्यो वा १, १२; १४; २, १.
 सातर्क्य- -व्यम् अश्री १, १,
 १३; पावा २, १, १; २५, ६, १;
 ६५; -व्यः काशी १, ७, २७;
 १०, १०××; द्वे, पावा १, २,
 ६; २, १, १; २५ -व्ये वाध ३,
 ४, ८; ५, ५, १०; पा ८, ३, ४४.
 समर्थ-त- -रागात् पावा २, १, १.
 समर्थ-निपाम- -नेपु वौश्री ३, २, १७
 समर्थ-निपाम- -ने पावा २, १, १.
 समर्थ-वचन- -न्त् पावा २, १,

a) तेष १ द.। b) पूष. = [उपचारात्] अर्थात्समित- (तु. सा दि ५, २४) ; वैद. अथ. समप-
 इति । c) पामे. वेप १ समयाव्युत्पि. द.। d) 'दामप्रतियो' इति पाका. पाणि.। e) = समयाव्युपित-।
 f) = वस-। g) विप. (इष्टि-) वत्. > क्त. (तु. वौश्री १३, २९ : ११, १२)। h) तु. पाणम.। i) वत्.।
 j) विप. (शक-)। उप. कर्त्तरि अच् प्र.। k) मलो. वत्. इति पाम.।

१; ३, १, १२; ४, १, ८२.
 समर्थो(र्थ-अ) विकार-रस्य पावा
 २, १, १.
 रसमर्थ- १ सम- द.
 सम्/अर्द् > सम्-अर्ध- पा ७,
 २, २४.
 समर्थनी-, अर्थवति- प्रथ. सम्
 ✓कृष् द.
 सम्/अर्प, समर्पणे वाप २८२ :
 ४; समर्पयन्ति हिथी १३, २,
 १०; समर्पये कथ ३, १०, ११;
 समर्पयत् वाधुथी ४, २१:१०.
 ✓समर्थ १ समर- द.
 समर्थ- -र्थे अथ ४८, १०५; निप
 २, १०.
 सम्/अर्ह > सम्-अर्हण- नात्
 : मीम् ५, ३, ४.
 समल- (> सामलायद-, ज्ञेय-,
 ज्ञेय- पा.) पाग ४, २, ८०.
 सम्/अलं/क, समलं करोति वैधीय
 १०.
 समलं-कृत- न्तम् अप ३३, ६, ८;
 -वात् अप ५, २, २.
 समलं-क्रियमा(ण) > णा- णायाम्
 वैधीय ११.
 सम-लोप्रा(अ)श्म-काञ्चन-
 १ सम- द.
 सम्/अष, सम्-अवन्तु अथ ४,
 १५:१०; निसम्-अवात्/आथी
 २, ११, १२; वाथी ३, ६, २;
 निसम् (अवात्) आथी २,
 ११, १२; वाथी ३, ६, २.
 सम्/अव/कम्, सम्-अवचकमे
 वाधुथी ३, २१: ५.
 सम्/अव/क्षि(अवे), समवक्षिनोति

आपथी १८, ४, १६; हिथी
 १३, १, ५०.
 सम्/अव/क्षि, समवक्षिणे वीथी
 २२, १४: २३.
 समव-क्षेपण- णा: वीथी २२,
 १४: २२.
 सम्/अव/क्षुद् > क्षुदां/क,
 समवक्षुदांकार वीथी १८, ४: १:
 ११.
 सम्/अव/क्षि(वने), समवक्षिनोति
 वाप ४०, १४; माप १, २१, ९.
 सम्/अव/ज् > समव-जी(र्ण) >
 णा- णा: जैप १, २२: ४.
 सम्/अव- १ सम- द.
 सम्/अव/दो (अवराएवने),
 समवद्यति थापथी ३, १, ६; ८,
 १, ११; १२, १, १; १२, २०,
 १४; वीथी; समवद्येव आपथी
 २४, २, ७; वाथी १, १, ४२.
 समव-ज- चम् आपथी १३, ११,
 ४; १४, ७, ८; वीथी २५, १२:
 १९; २०; २६; हिथी; -जानाम्
 कौम् १९, २८; ४५, १५; -जानि
 कौम् ४५, २.
 समवज-घान- नम् निव २,
 ६: १६; वाप ४, २, ११; वीथि
 २, ७, १३.
 समवजधानी- नीम् राथी
 ४, १४, २७; काथी २५, ७, ११;
 हिथी; -जानम् आपथी ७, २३,
 ११; २४, ८; १०; माथी.
 समवज-अव- -वात् मीम्
 ३, ५, २.
 समवज-होम- न्म: वाथी ३,
 ४, १२.

समव-दान- > णी/क > णी-
 कृत्वा माथी ४, १, १४.
 समव-दाय काथी ५, ९, १४; आपथी.
 समव-दाय- यद् वीथी ८, १: २२;
 १२: २; १७, ४८: ९.
 सम्/अव/घा, समवदधाति थापथी
 ५, १०, ८; १५, १५, १; माथी;
 समवदध्यात् वीथी २०, २७:
 १२; २१, २: २८.
 निसमव-वातवै माथी ७, १७, ६;
 हिथी ४, ४, ५९.
 समव-धाप आपथी १, १०, १३;
 ७, १२, १४xx; वीथी.
 समव-दि(त) > णा- णयो: माथी
 १, ५, ३, ३; वाथी १, ४, ३, २.
 सम्/अव/नी, समवनयति वीथी ९,
 ९: ३०; १०: ३२xx; वीथी ११,
 ५:८; हिथी १३, ५, १६; समवन-
 येत् वीथी २५, ३२: १४; ३१.
 समवनियाय वाथी १५, २३, १.
 समव-नीत- णा: वीथी २३, ९:
 २१.
 समव-नीय आपथी ८, ७, १०; १४,
 ७, ९; १८, १३, २१; वीथी.
 सम्/अव/क्षु > समव-क्षु(त) >
 णा- णाम् माथी १२, ९.
 सम्/अव/मृष्ट, समवमृष्टति हिथी
 १०, ३, ३१; समवमृष्टान्ते वाप
 १६, ५; समवमृष्टान्ति आपथी
 ११, १, १; वीथी ६, १९: ३;
 २५, १०: ९; माथी.
 निसमव-मृष्ट- -अत् वीथी १३,
 १४: १०.
 समव-मृष्टय वाथी ५, ८, २; माथी.
 समव-मृष्ट- -अत् वीथी १२, २३:

०) वैप १ द. १ ०) सदा. वै ५, ७, ६ समवन्तु इति पाठे. १) पाठे. वैप १ सुम्-अगिदिपत्
 डि. द. १ ८) समक्षि इति पाठः १) वनि. शोधः (ठ. प्रापथी.) १) नाव. (पत्तियपात्र-) १) यथ. लाथी
 ८, ८, १९ सनोत्तपात्रम् इति पाठे. १) समवि इति पाठः १) वनि. शोधः १)

२; द्विथी ७, ३, ७२.
 समव-यत्- सम्वे (व/इ) द.
 सम्-अव/रुघ्, समवरुघ्यन्ते वाधुथी
 ४, ४२; १; ७; १६; २६; २७.
 समव-रुघ्यत्- न्यन् नित् ४, २:
 ३६.
 सम्-वर्णा^० १सम- द.
 सम्-अव/लुम्प > लुम्पत्-
 न्यन् औथी ४, ७: १०; ११, ५:
 १०; १५, ३१: ९.
 सम्-अव/शम्, समवशामयति औथी
 ९, १५: १९; समवशामयन्ते
 औथी १४, १९: १५; १६, २९:
 ११; आप्रिष्ट ३, ८, १: २१; औमि
 १, १४: २०; समवशामयताद्
 औथी १५, ३१: २४.
 समव-शामयत्- न्यत् औथी ९,
 १०: ५.
 समव-शामयित- न्यम् आप्रिष्ट
 ३, ८, १: २२^०.
 समव-शामयितव्य- न्यम् औथी
 १४, १९: १५; १६, २९: ११;
 औमि १, १४: २०^०.
 समव-शान्त- न्यत् औथी १८,
 २५: १०.
 सम्-अव/सृज् > समव-सर्ग्यं-
 गावा ३, १, १२४.
 सम्-अव/स्तो, समवसरयन्ति औथी
 १६, १३: १.
 समवसापयन्ति वाधुथी ३, ७६:
 १.
 समव-साय औथी १६, १३: २;
 आप्य १, २९, ८; औप.
 सम्-अव/सु > समव-स्य- ये
 आप्य २, ७, ८.
 समन-प्रा^० न्यम् काण ११, १;

माण २, ११, ३.
 समव-प्रावि(व/अ)णी- णीम्
 आप्यौ १४, ६, ५; द्विथी ९, ८,
 २४.
 समव-स्राय काण ११, १; माण.
 सम्-अव-हित- समव/धा द.
 सम्-अवा(व/आ)प्, समवापुन्याय
 विध ५, १८७.
 समविचारयिपीत् नित् ४, १३:
 २०; ८, १०: ३१.
 सम्-विभक्त- प्रथ. १सम- द.
 सम्-अवे (व/इ), समवेति नित्
 ५, १२: ३; पा ४, ४, ४३; औव
 १०, ७, १३; समवयन्ति लाथी
 ६, ९, १२; नित् १, १३: ४.
 समवेत्यन्ति लाथी ८, ८, ३३.
 समव-यत्- न्यतो: नित् ६, ८: १५;
 -यसु नित् ४, ३: ३२; ८: ७.
 समवा(व-अ)य- न्य: औम् १०, ८,
 ४१; -यात् आथी ३, १०, १७;
 वाथी ४, ३, ९; औम्; -यात् वाप
 १२, ४०; पा ४, ४, ४३; -ये आप्यौ
 १४, ५, २; माथी ५, २, ९, २;
 १३, १; वाथी; पा ६, १, १३८.
 समवाप-वितेष- -यात् औम् ३,
 ८, २१.
 समवायादिकर्मत्- णीभि:
 औम् १०, ३, ५०^०.
 समवे(व-इ)ण- णम् संघ २९६;
 -ताद् आप्य ४, १; ७; -नाणाम्
 आप्यौ ६, २९, १९; १२, २४,
 ६; द्विथी ३, ८, ३२; आप्य;
 -थे अय २३, २, ४; -तेषु आप्यौ
 २२, २८, १; द्विथी ३, ८, ६८;
 २३, ४, ४१.
 समवेत-न्य- न्याय औम् ६, १,

१५.
 सम्-अवे(व/इ)ण्, समवेणो
 आप्रिष्ट १, ३, ५: ७; समवेणयेव
 औम् ५५, १९.
 समवे(व-ई)ण्य आप्य २, ११, १;
 द्विध २, ४, १७.
 सम्(म्/अ)ण् (व्याप्तौ), णिसमती-
 महि आथी २, ९, १०; औथी ३,
 १२: २२; माथी.
 समदुते नित् ५, १२: १४; द्विधि
 १७: ४; कण २, १०, १२; अण;
 समद्वयामदौ औथी १६, १, ५.
 सम्-अवतुवाल- नम् वा ७, २०;
 -नाणाम् या ७, ३०.
 णिसम्-अण्वै आप्यौ १०, १०, ६;
 द्विथी १०, २, १४^०.
 सम्-याटि- -यै औथी १७, १३:
 ७; औथी २१: १०.
 सम्/अण्(भोजने), समदुत: माण
 १, १२, ५; समदुतयन्ति या ६,
 २५.
 समदुतीत संघ ३८७.
 सम्-अशन- नम् औम् ७८, १४.
 समदानीय- न्य: कण ३, ५, १;
 -यम् षोड २, ३, १९; -ये अण
 ३, ७, ५.
 सम्-अशनत्- शनद्भ्य: -इशन्त:
 आप्यौ २, १८, ३९; माण २, ९:
 १४; द्विध २, ९, २.
 समदुती- णी: आप्य ४, ८,
 २७^०.
 सम्-शस् (ः) प्रथ. १सम- द.
 सम्/अस् (भुवि), णिसम्...बाण
 आप्यौ १, १, २; आप्रिष्ट १, ५,
 १: २; काण २५, १; औप;
 संस्वाद् द्विथी ८, ६, ३४.

a) पत्तररे पथि. b) नाप. c) उय, कृषियणो इव. d) समवायादि कर्मभिः इति जीतो. प्रथ. १

०) समवा (वाप) णीभि इति. *उपधी: (SL.DC.) इति च पाठः इति यति. श्लोकः (सु. उत्प. विधिन्वृत्ती):

सम्/अस् (चेपखे), समस्वते अथा

१, १, ११-१३; शौच ४, १;
समस्वति आपथी १६, २०, ५;
बौध्री १०, २५: १६; १९,
८: ७; गाथी ६, १, ६, ४;
वाधूथी; माधु २, २२; ५, १२;
आपथु २, ७; हिशु १, २९;
समस्वते वृदे ३, ३१; समस्वन्ते
आपथी १९, १५, १४; २४,
२, १८; भाथी १, ४, ७, ८;
दिथी २३, ३, ३३; समस्वेव
शौथी ७, २६, ६; आपथी १६,
११, ९; २४, २, १७; वैथी;
समस्वेयुः द्राथी ८, ४, १९;
साथी ४, ८, १६.

सम्-जसन् > समसन् (न-अ) द्-
-नाए^१ बौध्री ४, ११: १२०;
१६०; २००; १४, १३: १९.

सम्-असिन् (व्य >) व्या- अथा:
निम् ५, ९: ९.

सम्-असिन्वा आथी ६, ४, ३.

सम्-अस्त, स्ता- स्तः^२ बौध्री १९,

८: ८; वीथु २, ११, ४; -स्तम्
बौध्री ७, ८: १७; ८, २: २५;
११: ४४४; २४, ३१: ३४०;
भाथी; -स्तथा बौध्री १६,
३०: ५; १७, २७: ४; वीथ
२, १०, १४१; -स्तथो: वीथु
२: २; -स्तथ्य बौध्री १९,
८: ११; २८, १२: १९; मीथु
१०, ६, ६७; -स्ता वृदे ३, १४;
शुभ ४, १०२; -स्ता: वीथी
२७, ११: २; हिशु १, २६, १२;
वीथ ४, ४, ७; वृदे ८, ११०;
-स्ताम् आथी ५, ११, ४; १२,

७, ७; वैथी; -स्तानाम् वीथी
१४, १६: २४; निम् १०, १:
३२; श्रम १, २, १०; वृदे २,
१२४; -स्तानि आपथी २०,
११, ११; १२, ५; वीथी २२, १५:
१७; २३, १३: ३६; भाथी;
-स्ताभिः शौथी ४, २, ६; आपथी
३, १३, १; ९, ९, १४; भाथी;
-स्ताभ्याम् शौथी ५, १०, १८;
२१; -स्ताम् वीथु २, ५, ४०;
वीथु २, ६: १९; वीथ ४, ४, ६;
वीथ २, २, ६; ७, ४; -स्ते वीथी
३, १: ५; दिथी ६, १, २; निम्
३, ५: १७; १८; ७: १०; १२;
देनि १, ५; -स्तेन वीथी १६,
२७: २६; २०, ७: ६४४; द्राथी;
-स्तैः बौध्री २०, १०२; २३, ८:
२१; वृदे ३, ६०; श्रमा १८, ४८;
-स्तौ आथी २, १६, १५; वीथी
२१, २३: ११; १२.
समस्त-बोदित्व्य- न्वाद् काथी
२४, ४, २८; नीथु १०, ७, १.
समस्त-जहो (हो-क) द्- -सः
आथी ६, ५, ४.
समस्त-वेयजन- नम् बौध्री
२९, १: १.
समस्त-वोप- न्वाः अप ३, २, ५.
समस्त-पाप्य (पि-अ) हुठ^३ -ठः
आथी १, १२, ८.
समस्त-प्राण्य^४ -णम् लाथी
७, १३, १; निम् ३, १२: २४.
समस्त-विधान- न्वाद् मीथु
१०, ६, ५.
समस्त-विनास- न्वाद् वैथ १,
११, ३.

समस्त-व्यस्त- -स्ते पाप्या ५,
४, ३.
समस्त-शत्य-वजं- -वैम् वीथी
२७, ८: ७.
समस्त-मुन-द- -दम् अप ७,
१, १३.
समस्त-सिद्धि- -दिम् अप ३०^५,
२, ७.
समस्त-हरत्- -स्तम् अप ३०^६,
१, ३.
समस्त-होम- -नम् वीथी २४,
३१: १.
समस्ता (त-अ) जुमात्रण- -णम्
भाथी ४, १४, २; दिथी ६, ३, २;
४, १.
समस्ता (स्त-अ) र्थ- -थं मा ९,
२६.
समस्तार्थ-ज- -जम् वृदे २,
१०४.
समस्तो (स्त-उ) वेस- -शः गोथ
३, ५, १.
समस्तो (स्त-उ) वस्मान-प्रभृति-
-ति द्राथी ४, ४, ८; लाथी २,
४, ४; -तिना वाथी ६, १३,
१२.
सम्-धाय शौथी ६, ३, १०; ९, ५,
१३; १८, १४, ५; आथी.
सम्-अस्वय- -स्वय् आपथी १९,
१५, १०; वैथी ९, १२: १४,
दिथी; -स्वयः श्रमा १५, २०.
सम्-भास^७ -सः बौध्री २९, ८: १;
१०; १३: १४; लाथी १०, १२,
९; १४; निम् ३ श्रमा १५, १४;
अप ३, ४, १; शौच ४, २७;
भाम् १, ८; ९; नाथि १, ३, ८;

a) वैप १ द. b) पथे. वैप १ समस्तान् टि. द. (इ २५२१ b द.) c) 'मनसा' इति पाठः
यनि. गोषः द. (इ. उत्तरं स्वयम्). d) होम-विधेय- e) वत्. > वत्. f) उप. = १ प्रमाणा-
g) वत्. > प्रमाणे प्र. लुप्तः h) भाप., नाप. (पादिभाषिक-संज्ञा- [भाषा. वा. प्रश्न 1]).

पा २, १, ३; पावा १, २, ६४; २,
१, १; २, ५, ५, ३, ७२; ६, २, ६३;
मीस् ९, ४, १; -सम् आपथी
२४, २, १७; वीथी २४, २७;
१; २५, १ : ११x५; निस्; -
-सयोः शौच ४, ४३; -सस्व
निस् ३, ५ : २१; कौशि ७६;
पा ६, १, २२३; पावा २, १,
२५x५; -सात् निस् ३, ५ :
२६; ५, ९ : १०; पा ५, ३,
१०६; पावा २, ४, २६; ६३; ६,
१, १२; -सात् अथ ४६, १, ३;
श्रधा १०, १६; -से आपथी २१,
१५, ११९; २३; १६, ६; वाथी ३,
२, ६, २०; वैताथी; पा १, २,
४३x५; -सेन शीथी ६, १, १०;
आपथी १९, १५, १३; हिथी
२३, ३, ३३; हिथि १९, ६; अप
५८, ३, ४; ६२, १, ३; ७०, ११,
२; आपथी; -सेयु इदे २, १०६;
-सैः वृदे २, २८; -सौ अथ
४६, ७, ३३.
सामासिक- -क्य इदे १,
७९; -कम् अथ ४६, ६, १.
समास-कृत्-तद्धित(त-ञ)स्य-
सर्वनामा(म-ञ)सर्वलि(इ>)
ज्ञा^१ -ञी पावा १, ४, १.
समास-प्रहण- -णम् पावा १,
२, ४५; -जे पावा १, २, ४६.
समास-तद्धित-आथप-विद्युत्-
(मि-ञ)प- -थंम् पावा ८, १, १.
समास-तद्धित-विधि- -धी
पावा २, १, ५१.
समास-तम् (:)क्य ३, ७, ९;

अथ ६१, १, २८; ७०, १०, १;
विध ९७, २१.
समास-निपातन- -नात् पावा
७, १, ३७.
समास-प्रतिषेध- -घः पावा २,
१, १; ३, ४, २४.
समास-प्रत्यय-विधि- -धौ पावा
१, १, ७२.
समास-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा २,
४, ८१.
समास-बहुत्व- -त्वे पावा २, ४,
६२.
समास-यचन- -नम् पावा २,
१, ५१; २, १४; ४, १, ४८.
समासवचना(न-ञ)नुपप-
त्ति- -त्तिः पावा ५, १, ५९.
समासवचना(न-ञ)नर्थक्य-
-क्यम् पावा २, १, २९.
समास-बन्ध अथ ४६, २, १;
पावा ८, १, १२.
समास-विधान- -नम् पावा ६,
३, १०; -ने पावा १, २, ४३.
समास-शब्द- -शब्दः मीस् ९,
४, १५.
समास-संघात-प्रहण- -जेयु
पावा ४, १, १.
समास-संज्ञा(-ज्ञा)पावा १, ४, १.
समाससंज्ञा (ज्ञा-ञ)भाव-
-वः पावा २, १, ५१.
समासा(स-ञ)ङ- -ङ्गम् श्रधा
१, १४.
समासा(स-ञ)नुपपत्ति- -त्तिः
पावा ८, ३, ५९.
समासा(स-ञ)न्त- -न्तस्य पावा

४, १, ४८; -न्ताः पा ५, ४, ६८;
-न्तेषु पावा १, २, ६४; ४, १, १.
समासान्त-प्रहण- -णम्
पावा ८, ४, ११.
समासान्त-प्रतिषेध- -घः
पावा २, १, १.
समासान्ता(न्त-ञ)धिकार-
-रः पावा ४, १, २५.
समासा(स-ञ)श्लोदाचल-
-त्वम् पावा ६, २, १४३; -त्वे
पावा ६, १, २१९.
समासा(स-अर्थे)र्थ- -र्था
काशु २, २०.
समासा(स-ए)कार्थत्व- -त्वात्
पावा १, २, ४२.
समासा(स-उ)उपपद-बुद्धय
(दि-ञ)र्थ- -र्थम् पावा १,
१, २३.
सम्-आसम् आथी ५, १४, १४;
८, ४, १२.
सम्-संख्य-त्व- प्रष्ट. १४म- ६.
सम्-स्या- -स्यानाम् अथ ६८, ५, १०.
सम्-स्याः^१ वीथि १, १२; ३; हिथि
१० : २.
सम्-स्वन- प्रष्ट. १४म- ६.
सम्-महामत,ता- -ताः काथी २२, १,
४४; -ताः आपथी २३, २, १२;
१८; ४, १०; ५, २; ६, ६; १२;
हिथी; -तानि वीथी २३, ११;
१७; -से काथी १६, १, २;
वैताथी २८, २; -तेषु आपथी
१९, १५, ७; हिथी ११, १, २;
-तैः सम् २५, ३८.
समांश- १४म- ६.

१) पाठः । स मासः इति ७. शेषः ? । ४) = तद्धित- । ८) दत्त. > मलो. वस. । मत्सर्वं इत्युत्प्रेषण
जाति- इतिपदेन संभवम् । ५) ५५७ कसर्वलि इति नेष्टम् । ६) सम्, अस्याः इति द्विपदः शेषः (यु. वीथि.
मि.ए. J. उप. आश्रित ३, ६, ३ : २८ च; वैदु. ७. साम>मा->प१ इति) । ८) = व- । ९) पाठे.

स-मांस,सा- स वीम् ८४, १२,
-सा गोष्ट ३,१०, ४.
सम्-आ/कुल् > समा-जु (उ >)
हा-हा अण ७०^३, १५, १
सम् आ/रु, षसम्... बाह्युव
आपथी ३, १५, ५, वीष् १,
४, १३.
षसम्...आफरम्, सम्
(आवरम्)आपम १, ३, १४^५.
षसमा-कृत--तम् बाह्ये, १०, १२
सम्-आ/ख्या > समा-रया-
-व्या वीष् २, ९, २, या १२, ४१,
मीम् ३, ३, १३^७, १२, ४, ३६.
समा-रयात- पाण २, १, ५९, -त
आपथी १, ७, १०, -तम् अण
२२, ४, ५, १०, ४४४, याधि,
-ता अण २१, १, ५
समा-रयान- नम् मीम् ३, ७, १७,
८, २०, ५, ३, ३१, १०, १,
१२, -तात् काथी २, ५, २०,
वीष् १५, ३१. ७, द्विष्, -ने
आपथ १, २१, २०, द्विष् १, ६,
५०, -नेत् आपथी १२, २५,
१८
समा-रयाण्य आपथ २, २९, ७,
द्विष् २६, २०^०
सम् आ/गच्छ् गम्, समागच्छति
वाधुथी ४, ७१ २, समागच्छन्ति
आपथी ५ १८, ११, द्विष् ३, ४,
५४^५, वीष् २, २३, षसमा
गच्छत् वाधु २, २६ ३, द्विष्
१, १३, ६
समागमयाम वीष् १७ ४५ २
समागमयत् आतिष् ३, ६, २
१, वीष् १, १० २

समा-गच्छत्- गच्छ् वृदे ४, ४६
समा-गत- -तौ वाधुथी २, १०
११^३.
समा-गम- -न भाष् ३, १४
२०^०, वप्र १, १०, १०, -ने अण
५१, २, ५, ७०^३, ११, ३१, वाध
समा-गम्य अण ७१, १५, ४, अत्रा
समा-गिगमिपत्- -यत्त वीष्
१८, ४०: १२.
षसम्-आ/गा, समागा वीष् ६२,
१, सम् आगाम् आपम २,
२२, १३, भाष् २, ३०: १८, द्विष्
१, १६, ६
षसमागिष्- -ते वाथी ३, २, ६, २०
सम्-आ/प्रा, समागिप्रति वीष् २,
१०, २६
समा प्राय वैधीका २०२
समाङ्ग- १४म- द
सम् आ/चक्ष्, समाषटे अण ४३,
६, ५, ६३, ३, २, समाचक्षते
आपथ २, २७, २, द्विष् २, ५, २२
सम्-अर/चम्, समाचरति अण
१२४
सम्-आ/चर्, समाचरति वैष् १, ७,
३, २४, ४४४, समाचोत् वप्र
१, ६, ८, अण ३ ६, ११, २१, ५
१४४, वाध
समाचारविष्यत् निष् १७, २
२७
समा चरत्- रत् आप ४१, ३, ७,
वीष् २ १, ६२, द्विष् २२, ८५,
वैष् २, ८, ७, वीष् २१, ३
समा चर- पाण ५, १, १२४^६,
४, ३४
समाचारिष्- पा ५ ४, ३४

सामाचार्य- पा ५, १, १२४.
सम्-आ/चि, समाचिष्यत् वीष्
६३, ९.
सम् आ/च्छद् > समा-च्छदन-
-ने पावा ३, १, २१
समाज- सम्/अद् द
सम् आ/ज्ञा > समा ज्ञात- पाय
२, १, ११
समा(म् आ/अ)ञ्ज्, समाज्ञते वीष्
७२ २
सम् आ/तज्ज् > समा-तज्य वीष्
१२, ५ ११, १९, ३१४४.
समात्समा- १४म- द
सम्-आ/दा समादत् वीष् १, १२:
१, समाददते वीष् २६, १२.
२१, समाददात् वैधीका १५१,
अण १२८
समा दाय वीष् १, १४ २, २, १३,
३, ४, २ ४४४, वाथी
सम्-आ/दिञ्, समादिशति वीष्
२, १६ २९, २, १६ २४, वीष्,
समादिशन्ति अण ७०^३, ११,
२२, समादिशेत् अण ३६, ३,
३, ५९, १, ९४४
समा दिव्य वीष् १०, ५१ ३,
वाथी १४, २, २, ४, ७, वाथी
समा दिष्ट- -त् वप्र ३, ६, १३,
-ष्टम् भाष् ३, २ १४, आपथ
१, १३, १३, द्विष् १, ४, २७, -टे
आपथ १, ७, २८, द्विष् १, ३, ८५
समा वेत्- -त् आपथ १, १३, ५,
द्विष् १, ४, ११
सम् आ/धा, समादधाति वाथी ८,
१५ ५, वाथी ६, १, ६, १३,
षसमाधेदि आपथी ६, २४, १,

d) = अत् । b) आत्पदा इति जौम प्रयास प्रथ । c) ष्वधात् इति पाठः इति शोध
(उ आपथ) । d) तथा समागच्छन्तु <> समाधावन्तु इति पाठे । e) षम् इति पाठः इति शोध ।
f) सत्त शी ६, १३४, १ असे इति पाठे । g) इ पाठम् । h) पाठे वेद १६ ।
वैष् ४४-५६

५, २५, ८, माध्री ६, ४, ८,
 ५, ८, माध्री, पंसमापत्त गोष्ट
 २, ६, ७, श्राष्ट २, २, २०; समा-
 दधीत वैष्ट ३, ५:४, ५, १-
 १५, समादप्यात् निसू ३, ३
 ४१, १२:१५
 समाधास्यामि क्षुस् ३, ३:५
 समाधीयते वीध्री १८, १५: २१,
 समाधीयताम् क्षामिष्ट २, ३, ७
 १०, ३: २४, जैष्ट १, ६. ९
 ममा धान- नम् पाष्ट ११, ४, ७५,
 १, अश्राय १, १, मीम् ८, ४, २३,
 समा-धाय वैष्ट ७, १-१, द्विष्टि.
 समा धि- धय लाध्री १०, १५, ४,
 -धि. लाध्री ७, ७, ३०, निसू
 ७, १-४२x, आपष्ट, -धिन
 धय ३६, २९, १, ७०, ६, ५,
 -धिसू क्षुस् ३, ३ ६, १५, ४-
 ४, श्राष्टा २१, ६३
 समाधि-विशेष- -धात् आपध
 १, ३०, ५, द्विध १, ८, ५
 समा-धित्सव-> षत-तम- अ
 क्षुस् ३, ३: ३
 समा दित, धा- ष. जैध्रीका ७१,
 ११२, २०६, कप्र १, १, १६,
 १०, ३x, अय, -तम् फीम्
 १३७, ३०फ, आपध १, १, १३,
 द्विष्टि १, १, ११, -ता श्राष्ट ३, ६,
 -ता वीध्री १७, ४१: ११फ,
 पूंआपम २, ५, २२, ८, २७,
 वीष्ट ३, १५, ३, श्राष्ट, क्षामिष्ट
 १, ३, ४ १२फ, -तलाम्

वीष्ट ७, ३, १, ४, १.
 समाहित-प्रायणीयो(व ठ)
 दयनीय--य. निसू ९, ९ १७०.
 समाहित-मनस्^०--नस क्षामिष्ट
 २, ३, ३: २५.
 समाहित(त-अ) प्रपङ्ग-
 -नम् अय २, ३, ५
 सम् आ ✓घात् (गती), समाधावन्तु
 आप्तम् २, २१, १५फ^०.
 स^०मापुच्छन्दस- सा वीष्ट ७,
 ६, १.
 स^०माध्यन्दिन- -नाम् अश्राय ६, ४
 रिसम्-आन- उम्/अत् द.
 २समान, ना^०- पाग २, ४, ३१^०, ७,
 १, ३५, ५, ४, २३^०, पागम
 १५६, -न श्राध्री ७, १२, ६,
 १०फ, ६, ८, १३, आपध्री ७,
 ११, ५फ, ६, २१, ११x, वीध्री
 १, १७: १^०x, १०, ५९, ६, ७^०,
 माध्री, सुप्रा ५, ३६, -नम् आध्री
 ७, १३, ३, ५, १२, २२, ६, ३,
 १७, १३, १६x, श्राध्री, माध्री
 १, ५, २, १३फ, -नपा वा १०,
 ५, -नस्य वा ६, २, ८४, पावा
 ५, ३, २२, -ना आध्री २, २०, ३,
 माध्री १, ७, ५, ३४, काष्ट १५,
 ५फ, पूंमाष्ट १, ८, १०^०, १२, ६^०,
 वीष्टि २, ६, २२फ, -नंता काध्री
 १९, ३, २६, आपध्री १, ९-१०,
 १२, १९, ९, १, वीध्री, -नाम्
 तैप्रा ९ २३फ, -नलाम् आपध्री
 २२, २३, १७, पूंवीध्री ८, १४

२५, १७, १७ ९, १८: १७x
 वाध्री, पाष्ट १, ३, ८फ, -ना
 काध्री २२, १, ४०, द्विध्री १
 ६२, ८, २८, ११ ८, २२, कौम्
 -नाम् आध्री १, ३, २०, -ना
 वाम् पावा ७, १, ७४, -ने आध
 १, ३, ३२, काध्री २२, १, २८
 आपध्री, -नेर कौम् २, ३८
 -नेमि वा ६, ७फ, -नेपु वीध्री
 १५, २८ ११फ, वाध्री ३, १३
 १०, -नै वीध्री १३, १४ ६, २०,
 १०, -नौ आपध्री १७, ३३ ६,
 द्विध्री १५, ८, ४१, १६, ७, १३^०,
 वैष्ट ५, २. १४
 समानी- वा ७, १, ३०, -नी
 श्राध्री १८, २१, ४, वीध्री ३ १४
 १६, ६, २१. २५, १०, १९
 ७^०x, द्विध्री, आप ३, ५, ८फ,
 विधर १, १४फ, -न्य. वीध्री १०,
 ५९ ७, ११, १३ १x,
 -नृन्या वीध्री १०, २३-२४,
 वा ७, २, ५७, -न्याम् श्राध्री ६,
 १, १३, वा १०, १६
 सामानिक- नम् पावा ७, ३,
 ६०
 सामान्य^०- वा ५, ४, २३, -न्य
 निध २, १७, -न्यम् आध्री १०,
 ५, १४, वीध्री १८, ४५ ३३,
 माध्री, -न्यस्य पावा १, ३, ६८,
 -न्या वाध्री ७, २७ १८, निध
 ६, २ २८, ७, ८ ३२, ९ ३
 ३२^०, १०, १ ४^०, -न्या क्षुस्

a) सपा द्विष्टि १, १३, १९ इह धिता इति पामे । b) पामे वैष्ट २ समाहता. रि ७, ९, २ इि द ।
 c) 'द्विष्टि प्रा' इति पाठ ? यनि शोष (तु सखर्दुं टि) । d) वा । e) पामे २५५७ d द । f) = पत ।
 g) वैष्ट १ द । h) तु पायम । i) समान स्थिच्छुम् > सपा वाध्री १, ७, ५, २२ सह स्थिच्छुम् इति पामे ।
 j) सपा समाना (मे २, ३, ६ काठ १०, १२ च) <> समानी (तैप्रा २४, ४, ५ च) इति पामे । k) पामे पृ
 २५०१ l द । l) सपा. आपध्री २१, २१, १७ एयम् इति पामे । m) सत्र वाध्री १, ७, ५, २२ सह इति पामे ।
 n) स्वायं न्य, कावे प्यत् द. o) साम इति पाठ ? यनि शोष (तु सखर्दुं टि) ।

३, २ १९, निस् २, ११ ७,
 -न्यात् शीघ्री १, १६, १८, काश्री
 १, ४, ४, १४, २, २०×४,
 आपश्री, -न्याम् शीघ्र ३,
 २१, -न्ये वैष २ १३, ८, ४८
 २, ११०, या २, १, शीघ्र,
 पावा २, ४, १७, ८, १, ५१,
 -न्येन काश्रीस २५ ३, षण्ड
 ४६ ३, पावा २, ४, ३५×४,
 -न्येयु क्षुत् ३, २ १९
 सामान्य-कृत-त्य- न्यात्
 पावा १, ४, ८४, ३, १, २६,
 सामान्य-महना (ण-अ) र्थ-
 र्थ, -र्थम् पावा ३, १, ४३
 सामान्य चान्द्रायण- -ग
 विष ४७, १६
 सामान्य थोदना- -ना पावा
 ४, १, १२
 सामान्य-तम- -नम् शीघ्री
 ३, २०, ९, शीघ्र ३, १०, ३१, शीघ्र
 २, १५, १,
 सामा य तस् () काश्री १,
 ४, २, वैष १, १६ १×४
 सामान्य ता- तया कश्रीश्री
 सामान्य-निर्देश- -न्यात्
 पावा ४, १, १२
 सामान्य पूर्व- -न्ये कश्री
 १, ५, ००
 सामान्य प्रायश्चित्त- तम्
 वैष ६६ १
 सामान्य-उल्ल(ण>)ण-
 णा श्रप २४, १, १०
 सामान्य वचन- -नम् पा ८,
 १, ०३, -नस्य पा ३, ४, ५, -नै
 पा २, १, ५५
 सामान्यवचना प्रसिद्धि-

-द्वि पावा २, १, ५५
 सामान्यवचना (न-अ)
 प्रसिद्धि- -द्वि. पावा २, १, ५५
 सामान्य-वाचिन्- विन
 वृदे २, १०९
 सामान्य विधाना (न-अ)
 भाव- -न्यस्य पावा २, २, ३
 सामान्य विधि- -न्ये निस्
 २, १३: ४५
 सामान्य विशेष-वाचिन्-
 -चिने पावा १, २, ७२
 सामान्य नाम्न- -न्यात् मासु
 ३, १३
 सामान्य-पा(न्य-अ)विदेश- शे
 पावा १, १, ५४, ६, १, ६८
 सामान्या(न्य-अ)व्ययोग- -ने
 पा २, १, ५६
 सामान्या(न्य-अ)विधान-
 न्यात् पावा १, २, ५८, -ने पावा
 २ २, २४
 सामान्या(न्य-अ)र्ष-न्य-
 न्यात् पावा १, २, ७२
 सामान्यपा(न्य-अ)श्रय-त्य-
 न्यात् पावा २, ४, ३५
 सामान्यो(न्य-अ)पदेश-
 -न्यात्पात् काश्री १६ १, ३७
 समान ऋषि- -न्ये वैष ४ ८, ५
 समान-ऋषि-गोत्र- -न्ये वैष ४ ८, ६
 समान-करण- -न्यात् शीघ्र १, ५०
 समानकरण रूप-भास्- -भाक्
 शीघ्र ७७
 समान कर्तृक- -न्यो पा, पावा
 ३, ४, २१, -न्यात् पा ३, १, ७,
 -कतु पा ३, ३, १५८
 समान कर्मक- -कणाम् पा ३, ४
 ४८

समान-कार्त्त- -नैगाम् या १, १४,
 -नैगो या १२, २, -नैगि या
 १ २०, -नैगि या २, ७
 समान-काल, हा- -न्ये न्यात् ११
 १, -न्यो या १२, २, -न्य
 श्रया ६ ३३ -न्या माश्री ५ २,
 १४, २३, शीघ्र १, ६, ४, -न्यो
 न्यात् ११, ४७
 समानकाल-स्वर- -न्ये तैषा १, ३३
 समान काल-ग्रहण- -न्यम् पावा ५,
 २, ८५
 समान-रचान- -ना या ७, ३०,
 १३, १३
 समान-गति- -ति या २, ११
 समान-योत्र- -न्या वाश्री ४, १,
 १९, १२, १०, १, शीघ्री २३,
 ९ १९, २१, शीघ्र ३, १, ६,
 -न्यात्पात् आपश्री २१, ३, ४,
 द्विषी १६, १, ३६
 समानगोत्र-न्य- -न्यम् शीघ्री
 २ ४
 समान ग्राम- पावा ४, २, १३८,
 पावावा ४, ३ ६००, -नै आपय
 १, ५, १३, द्विष १, २, १३
 सामान्यप्रामिक- पावा ४, ३,
 ६०
 समानग्राम वास- -न्ये पाय ३,
 १०, १७
 समानग्रामीय- पाय ४, २,
 १३८, -नै आप ४, ४, २७
 समान चतुर्मुदि- -शी शीघ्री २२,
 १७ २०
 समान-पञ्चदश-मान- -न्यात्
 शीघ्री १३ १, ८
 समान उन्वत्- -न्ये न्ये १, १६
 समान जन- -न वाश्री २२, १,

a) कत । b) पत । c) तु पायम् । d) पत > पत । e) = सगोत्र- वा प्राणणयात् वा इति सा [ता १६, ६, ९७, अग्निस्तामिन् [काश्री] ।

२९, लाथी ८, २, १०-१२.

१समान-जनपद- -दे हिथी १५, ५,
२३.समानजनपद संतव- -वे बाथी
२५, १४, ८.२समान-जनपद- -दे अत्राय
६, ६.समान जन्मन्- -न्मानो या ११,
२३^२.समान-जाति- -तिभि. विष १६,
१५समानजाति-क->का- -का
यासि १, ७३.समानजाति-ता- -ता या ६,
१४.समानजाति-धर्म- -र्मः आथी
२, १, २४समानजातीय, जा- -यस्व या
७, २०^०, -या शीथी ६, ९, ११,१६, ४, ५, -याम् लीथ १, २० २,
-येन आपथी १, २५, १, भाथी६, १७, ५, वाथी ३, २, १, १८,
६, ६, हिथीसमानजातीय त्व- -त्वे पावा
५, २, ४५^०१समान-जन्- -जम् मीथ ११, ३,
१५२समान जन्मन्, म्ना- -न्त्र वैथी ७,
५ १३, -न्त्रम् आपथी ३,१५, २, वीथी २३, १ १२,
भाथी ३, १३, १, मीथ १२, २,३३, -न्त्रा शीथी ३, १२, १३,
-न्त्रा शीथी १७, ४०, २१,
भाथी ५, २, १०, ४६, -न्त्रामिथाथी ५, २१, ६^०; भाथी ५,
१३, २२; हिथी ३, ५, १६,-न्त्रे शीथी २, ३, १; आपथी
९, ४, ३, भाथी ६, १५, १७;
-न्त्री हिथी १३, ३, ४४समानजन्म-त्व- -त्वात् मीथ
११, ३, ५३समान-तवादेवता- -ते आपथी
१६, २४, ९, १७, १, ७, ३, १,
१०, ४, ५, वीथी, हिथी ११,
७, ३७^१, १२, १, ४^१, १२^१,२४^१, ३४^१.समान-तस् () वाधूथी ७, ७८: ६,
गोध २, २९समान-ता- -तया हिथी १२, १,
२४.समान-वीर-समान तीर्थ- पाग २,
१, १७^०समान-त्र आपथी २, १७, ५, ८,
१५, ३, २३, ८, १३, वीथीसमान-दक्ष- -क्षा आपमे २, ११,
८^१समान दक्षि(पा >) ग- -गानि
शीथी १७, १०, २२.समान देवत, ता- -त वाथी १, १,
१, ५८, -तम् भाथी ७, १७, ४,
भाथी १, ८, ५, २, ५, १, १,
वाथी, -तस्य वाथी १, ३, ४,
१२, -ता वीथी २६, ६ १५,
भाथी ५, १, १, ९, -ताम् वैथी१७, १० : ७, -तामि शीथी
१६, ७, ९, -ते मीथ १०, ४, ७, ७,
-तेषु भाथी ५, २, १२, २९,
वाथी ३ २, ६, ४, ७, -ती लाथी

९, १२, ४.

समान-देवता-> १५- -त्वा वीथी
११, ४: ११, -त्वात् वीथी ११,
३: ३३, -त्वानाम् वीथी ११,
५: ९.१समान-देश- पावाग ७, ३, ६०^०,
-दे लाथी १०, ५, १२२समान-देता- -शा: मीथ १०, ८,
५६समान-दैवत- -तम् हिथी ७, ४,
४६१समान धर्म- > मीथ- -मिथ
ये ३, १२८२समान-धर्म- -पा ६, ३, ८५^०,
-र्मम् भाथी १, ७, १, २६

समान चातु- -ती पावा ३, १, ८७

समान नामधेय- -तानाम् वाथी
३, ३, १, २१.

समान-निर्वचन- -नानि या २, ७

समान-पक्ष- -क्षे शीथी ९, ३, ७,
वीथी २२, १३: २२, लाथी ९,
३, ९.समान पद्धि- -द्धौ आपथ १,
१७, २, हिथ १, ५, ३४समान-पद- -दे अत्राय ५, ४०, अत्राय
३, २०, ५६, ८४४४, तत्राय
समानपद विवृति-विराम-
मः तत्राय २२, १३.समानपद स्य- -स्यस्य पावा ७,
२, २६, ५८, ५९.समान पात्री- -व्याम् वीथी २५,
२० १

समान पाद्- -दे पा ८, ३, ९

समान पूर्व- -र्वे पावा ६, ३, ८५

०) वस । ०) स्वाविष्णु ७ > ईष प्र (पा ५४, ९) । ०) तु स्तु । असमान इति तु राज ।
 ०) तु पति । ०) विव (दृष्टक) । वस । १) या दे इति पाठ २ यनि शोध (तु आपथी) । ०) आने
 ० इति पाठ २ यनि शोध (तु आपथी १७, २, १०) । ०) तु पागम । ०) वैष १६ । १) वस ७५,
 = २६ शिणः । ०) वस > वस ।

२९; लाघो ८, २, १०-१२.
 १समान-जनपद- -दे हिथी १५, ५,
 २३.
 समानजनपद-संसय- -ने वाथी
 २५, १४, ८.
 २समान-जनपद- -नी क्षप्राय
 ६, ६.
 समान-जन्मन्- -न्मातौ या ११,
 २३.^१
 समान-जाति- -तिभिः विध १६,
 १५.
 समानजाति-क- > का- -क
 याधि १, ७३.
 समानजाति-ता- -ता वा ६,
 १४.
 समानजाति-धर्म- -र्मः आथी
 २, १, २४.
 समानजातीय, या- -यस्य या
 ४, २०; -याः शीथी ६, ९, ११;
 १६, ४, ५; -वाय् लैट् १, २०, २;
 -वेन आपथी १, २५, १; माथी
 ६, १७, ५; वाथी ३, १, १८;
 ६, ६; हिथी.
 समानजातीय-त्व- -त्वे पावा
 ५, २, ४५.^२
 १समान-सम्प्र- -म्प्रम् मीत् ११, ३,
 १५.
 -तन्त्र, न्त्रा- -न्त्रः वैथी ४,
 ५; १३; -न्त्रम् आपथी ३,
 २; वैथी २३, १; १२;
 आथी ३, १३, ९; मीत् १२, २,
 ३३; -न्त्रा वाथी ३, १२, १३,
 -न्त्राः शाथी १४, ४०, २९,
 वाथी ५, २, १०, ४६; -न्त्राभि

आपथी ५, २१, ६; माथी ५;
 १३, २३; हिथी ३, ५, १६;
 -म्प्रे शीथी २, ३, १; आपथी
 ९, ४, ३; माथी ६, १५, १७;
 -म्प्रो हिथी १३, ३, ४४.
 समानतन्त्र-त्व- -त्वान् मीत्
 ११, ३, ५३.
 समान-तथादेवता- -ते आपथी
 १६, २४, ९; १७, १, ७; २, १;
 १०; ४, ५; वैथी; हिथी ११,
 ७, ३७; १२, १, ४; १२;^३
 २४; ३४.^४
 समान-तस्त्रः (ः) वाघ्थी ४, ७८; ६;
 गौघ २, २९.
 समान-ता- -तया हिथी १२, १,
 २४.
 समान-तीर- , समान-तीर्थ- पाग २,
 १, १७.^५
 समान-प्र आपथी २, १७, ५; ८,
 १५, ३; २३, ८, १३; वैथी.
 समान-दक्ष- -क्षाः आपथे २, ११,
 ८.^६
 समान-दक्षि (शा >) ण- -णानि
 शीथी १४, १०, २२.
 समान-देवत, ता- -ताः वाथी १, १,
 १, ५८; -तम् माथी ७, १७, ४;
 माथी १, ८, ५, २; ५, २, १, १;
 वाथी; -तस्य वाथी १, ३, ४,
 ३२; -ताः वैथी २६, ६; १५;
 माथी ५, १, १, ९; -तात् वैथी
 १७, १०; ७; -ताभिः शीथी
 १६, ७, ९; -ते मीत् १०, ४, ४७;
 -तेषु माथी ५, २, १२, २६;
 वाथी ३, २, ६, ४७; -तौ लाथी

९, १२, ४.
 समान-देवता-> त्व- -त्वाः वैथी
 ११, ४; ११; -त्वान् वैथी ११,
 ३; ३३; -त्वानाम् वैथी ११,
 ५; ९.
 १समान-देवा- पावाग ४, ३, ६०;^७
 -वे लाथी १०, ५, १२.
 २समान-देवा- -ताः मीत् १०, ८,
 ५६.
 समान-दैवत- -तम् हिथी ४, ४,
 ४६.
 १समान-धर्म- > मित्- -र्मिणः
 वृदे ३, १२८.
 २समान-धर्म- पा ६, ३, ८५;^८
 -र्मन् माथी १, ७, १, २६.
 समान-धातु- -तौ पावा ३, १, ८७.
 समान-नामधेय- -यानाम् वाथी
 ३, १, २, १.
 समान-निर्वचन- -नानि या २, ७.
 समान-पक्ष- -क्षे आथी ९, ३, ७;
 वैथी २२, १३; २२; लाथी ९,
 ३, ९.
 समान-पक्षि- -क्षी आपथ १,
 १७, २; हिथ १, ५, ३४.
 समान-पद- -दे श्रपा ५, ४०; श्रपा
 ३, २०; ५६; ८४×४; तैषा.
 समानपद-पितृति-विराम-
 -मा तैषा २२, १३.
 समानपद-स्थ- -स्थस्य पावा ४,
 २, २६; ५८; ५९.
 समान-प्राथी- -प्याम् वैथी २५,
 २०; १.
 समान-पाद्- -दे पा ८, ३, ९.
 समान-पूर्व- -र्वे पावा ६, ३, ८१

द) वस. । b) स्वाधिकृत् छ > ईवः ष. (पा ५, ४, ९) । c) हु. २६. । असमान^० इति हु. राज. ।
 d) हु. पाठि. । e) निप. (इल्लता-) वस. । f) था दे^० इति पाठः इ वनि. शोधः (हु. आपथी.) । g) 'मार्त
 व' इति पाठः इ वनि. शोधः (हु. आपथी १७, २, १०) । h) हु. पागम. । i) वैप १ इ. । j) वस. उप.
 = २दक्षिणा- । k) वस. > वस. ।

१५०८.
 समान-नयमान- न वीथी छ, ६
 १५, ५, ३ cxx, नी वीथी
 ५, ८ १२
 समानोद्योग- न कप्र २, ९, १८,
 -ने क्षा २२, ९, १
 समा नीय आथी ६, ८, १, काथी.
 समानुपपत्ति- १सम- द
 सिमानेनाथायाम् सुप ४९
 समानोद्दर्य- १समान- द
 समान्त- -न्यम् माथी ५, १, ५, ८०
 समान्तर- १सम- द
 सिमान्तरानु वाथी ३, ४, ३, १७
 समान्तराल- १सम- द
 सम्/आप्, समाप्तेति वाप ११,
 ३८, वीप २, ६, २-६, वीशि
 २८७, समान्तु वृदे १, ९२,
 समान्तुवन्ति वीथी १५, २११, ५,
 समान्तुहि वाथी ४, ३७ २६,
 समान्तुपय आपथी १४, ३, ५४,
 १५, २, १३, वीथी २७, ११ १५,
 २९ ८ २६, माथी, समान्तु
 आथी ६, १४, १२, अत्राय २, ५,
 ८, १, ३, ९, ६, ७, समान्तुयाम्
 वेताथी ३७, १४
 समाप शुभ १, ७२, समाप्त्वामि
 वाथी ३, ४६ ६, समापयम्
 मीत् ५६, ६१, समापय् वीथी
 ११ १६, १७
 समाप्यते वीथी २० ४, ६, वाप
 ४४ १, ४, अत्र
 समापयति वीथी १३, ३ ६,
 ध्रुव २, २ ९ वेप ७, ६ १२,
 समापयत आपथी २२, ७, २४, १,

वाथी ३, ७१ : २१, दिथी
 १७, ३, २३, अत्र २, ७, ३०,
 समापयाम्, > वा वीथी १५ ४
 २१, अत्र २०, ७९, समाप-
 याम् वाथी ३, ७१, २,
 समापयेद् आथी १, ४, ११,
 आथी १, ३, २२, २, ३, ३३, ५३,
 वाथी, समापयेयु आथी ६,
 १०, ११, काथी २४, ६, २५,
 आथी ४, १, १५xx, वाथी
 समापयिष्याम् वीथी १५, ४ १
 सम् आपय- न नाथि २, ७, १
 -नम् आथी ३, २०, ७, ४, १४,
 २, ५, २, ४, वीथी, -नात् काठ.गी
 २४, काथी २८ : १७, ३१
 १, माथी, दिथि २, ५, ५२,
 पा ५, १, ११३, -ने आपय ८,
 १, नाथि १, ७, १४
 सम् आपय- -नम् आथी १०, ७, १०
 सम्-मात्, स- -स वीथी १६,
 १२, ९, अत्र १२, ५, ९, ३०,
 २, ११, -सम् आत् २, ३, ४
 ८, कौत् ५६, ७, ६७, १४,
 वाथ ४१ २६, मीत् २, ३, ७,
 -सा वाथी ३, १८, १७, अत्र
 १८, २०, १, कात् ७, २९, -सा
 काथी ६ १, शुभ २, १८०, अत्र
 १५, ३१, १८, ५८, -सात् अत्र
 ६१, १, २८, -सात् गोप ३,
 ९, १७ आत् १, ४, १५, ३ ३, २४,
 -सात् वाथी २, १, ४, ५, वाथी
 ६, २, १५, गोप २, २, १५, ४, १०,
 -सात् सात् आथी १०, ६, १०,
 -से वाथी १, ४, १२ ५, ७, ४,

वाथी १५, १४, १३, वाथी,
 -सात् वाथी ३, ४४ १९,
 -सेत् आथी ६, ३ ४, वाथी २,
 ११, १, निम् ३, ५ ३, ११,
 समात्-सत् गोचर- रा. अत्र
 ४०, ६, १६
 समात्-त्व- -त्वात् वीथ ३, १,
 २४
 सम् आत्- -व्यम् अत्र १ २७
 सम्-आत्- -सत् वीथी १५, २२
 १, -सि. वाथी २२, १, १३, ६,
 ८, वाथी, -सिम् वाथी ३,
 ८३ १३, -सिम् वा ६ १८,
 -सीनाम् वाथी ३, ८३ १३,
 से आथी १, ५, ३६, वाथी २२,
 ६, १८, दिथी, -सी आथी १,
 २, १३, दिथी २३ २, ५०, मात्
 १, ४, १८, वीथि ५५ -व्ये वाथी
 १२, २१ दिथी ३ ७, ६१
 समात् वचन- -नात् मीत् ९,
 ४, ५३
 समात् वत् मीत् २, ४, १९
 समाप्य(ति क्र) ३- -न्यम् अ
 १ १५
 सम् आपय- -वन्त वाथी २०,
 २, १७
 सम्-आत् अथी १, २, २xx, वाथी
 सम् ईप्- -व्त् इत् ७, ३ ३३
 समाप- -वा ६, ३, ९७
 सम् आ/पद्, समापयते माथी २
 ५१, ४८, २, २५, निम् ८, १
 ४०, ४१, अत्र ३, ३, १८, समा
 पयन्ते शुभ ३, १ १५, १० ४१
 xx, निम् ७, ३ २४, २, ५ ३७

d) आप्येयम् इति शेष समाप्यते (इ पदा २, २७३ 'व्येयम् इति)। b) वेप १ द। c) इ वा ३, १, ८६। d) परस्पर पामे। e) परस्पर पामे। f) परस्पर पाग। g) उप गोदे कर्त्तृ च कृत्। h) = वरम (चतुर्थ पद-)। i) सवा आपय २, १७, २४ परिसमापनात् इति पामे। j) वत् > पय। k) ध्रु । <सम+धात्- इति पाति पाठे।

समाख्य, ८० - -ः आपथी ५, २९, १२, ६, २८, १४, वीथी १४, १:१९; १९:१४, माथी, -दम् बाथी ४, ४६: १२; द्विथी ३, ८, १२, -दा: द्विथी १७, १, ३३^०, -वे बाथी २४, ४, २२; जेथ २, ४: १२; -वेपु बाथी ३, १२, २०; वीथी २४, २९: ११, १३x४, बाथी ६, ५, १, १; आसिथ समाख्य-दा- -ताम् आसिथ २, ७, २: ३६.
समाख्य निर्मथित- -वथी. काथी ५, २, १९; -वे काथी ६, १०, १२x४, -वेपु काथी १२, १, २०.
समाख्य(ठ-ठ)थि- -थि. वीथि २, ५, १
समा-रोपण- -जम् आसिथ २, ७, २: ३३^०, द्विथ १, २६, १७, -गे वीथी २३, १९ - ५, ४६, वैथ ६, १९-१५
समा-रोपण मन्त्र- -न्यम् वीथी २७, १०-१०.
समा-रोपण-सामर्थ- -थ्यम् वीथी २७, ८ ६
समा-रोपण- -न्यम् बाथी २, २, ५७
समा रोपिण- -तेपु वैथी २०, ३१-१
समा-रोपिण(त अ)समा-रोपित- -वे अथय २, ८
समा-रोप्य बाथी ६, १०, ८x४, दाथी
समा रोप्यमाण- -जम् वेताथी २४, १४
समा-रोप्य- -ये वा १२, १९

समा-रोप्यमाण- -वा: दाथी २, १७, १.
समा-रोप्य शीथी ३, १९, १३, २१, ९; बाथी,
समा-रुमा^० प्रम्. १म- ४
सम्-भा ✓लम् > समा-लम् वाथ १३, २६.
सम्-भा ✓लिल्लु > समा लिल्लु अथ ३६, ८, ३.
सम् भा ✓लोक् > समा-लोक् अथ ६४, १०, ९
सम् भा ✓लोह > समा-लोह अथ ३८, २, ६.
समावत्^० -वत् द्विथी ११, ७, ५८.
समावती- -ती वीथी ३, १७-१९; २२, १५, १९: ७.
समावच्छ- (<श)त् (>)वीथी ११, १३-२९ २३, ३: १७, ९, २३.
समावद्-वीथी^० -थं द्विथी ८, ६, ३५, -वम् आपथी १२, २१, १९, -वी: आपथी ६, ७, ८, -वीथि वीथी १४, ६: २५^०.
समावद्दान- १म- ४.
सम् आ ✓वपु समावपति आपथी ८, १७, ५, १८, ७, वैथी २, ११-१३, समावपति आपथी ८ १८, ६^०, माथी १, ७, ७, ९, बाथी १, ७, ४, ६६, द्विथी ५, ५ १६, १८, समावपेत् अथय ३, ७, समावपेपु आपथी ८, १८, ४, ५
समा-वपमान- -न वीथी ४, ८ १४, ९ ३१, १२ १३x४
समा-वप्य अथ ६७, १, ६
समा-वप्य-> >प(प आ)दि- दि दाथी ४, १, ९

समा(मा-उ)त्-> प्ल,पति^०-
-नम् दाथी ८, ८, १९^० LIPF
समा(मा-उ)प्य बाथी ४, १, ६,
आपथी ८, १८, ४x४; बाथी ४,
माथी ११, १३, २६.
सम् आ ✓वह, समावहति दाथी ४
२७: ७, वीथी १५, १: २०;
द्विथी १४, १, ६
समा(मा-उ)त्- -दा: आपथी २२, २, १७^०.
सम् आ ✓विशु, समाविशेत् आसिथ २, ६, ५: १३.
समावेश्यति कीट ७९, ८, समा-
वेश्येत् अथय २, ९, ३, ९^०.
समा वेश- > 'श-नाचन- -नम् वाच ३, ४, ६, ७.
'समावेता(श अ)थं- -थंम् पाठा ५, १, १२२
समा-वेशन- वाग ५, १, १११^०,
-वे आपथ ३, १०.
समावेशनीय- वा ५, १, १११.
समा-वेश्य अथय ३, ९
सम् आ ✓वृ (आच्छादने) > समा-
वृण, वा- -ना कीट १२५, २^०,
अथय २, ६^०, आउ^०, ७, १५,
७१, ११, ३, -वम् अथ ६४, ८,
७, -ता अथ ७०^०, ११, ३०.
समा वृथ्य वीथी ६, २१ १७, २,
६ २३, विथ.
सम् आ ✓वृत्त, समावर्तेत् पाठ २,
५, ३१-३५, समावर्तेत् कीट
३ १, ८, अथ ३, १, १५
समावर्ति^० बाथी ११, ५,
२०, आपथी २९, १०, ७, द्विथी
२३, १, ५७, वैथ १, १६.

a) बाथी पाठ । b) परतरं पाठे । c) वेप १३ । d) वत. । e) नाप (यतिवपान्नेद-) ।
f) पाठे वृ २५५३ ६ । g) वप आपथी १५, १३, २ न्युप्य इति पाठे । h) तु पाठम । i) सवा
समावर्ति (मा २०, २३ प्रम् वेता २, ६, ६, ५ च) <> समावृणत् (मी ३, ११, १० च) इति पाठे ।

४, छुप्र २, ४२१, छुपा ६, २६
 षसमावृत्त^६ माथी ५, २, ११,
 ३८, माथी ३, २, ७ ४४
 समावर्तयन्ति माथी १२ ६, ९
 षसमावृत्त^७ आपथी १८, १६,
 ७, वीथी १२, ११ ७, माथी
 समावर्तयन्- नम् वीथी १७
 ४२ १५, आलिष्ट १, ४, १ १,
 वीथ, -नात् वीथ २, ६, १९,
 वैथ ६, ८ २, नाथ २३, ४
 समावर्तयन् विद्या-हीन- ने वैथ
 ६ ११ ९
 समावर्तयन् प्रभृति- ति वीथ २
 ६, २०
 समावर्तयन्ती- > ष-समापनी-
 य- ययो कौट ४२, १२
 समा वर्तमान- न प्राष्ट ३, ८, १
 समा यस्वन्- स्वन् प्राथी ३०
 १, ३ ४, लाथी ९ ४, ५
 समा वस्यमान- नत्थ वीथ ३, १,
 १, शांथ ३ १, १
 समा वृत्^८ > षित्- ती वैथ
 २ १२, ७^६
 समा-वृत्- त् आथ ३, ५ १५
 द्विष्ट १, ११, १, आपथ २, ७, १५
 द्विष्ट, -नम् आपथ २, ५ ४,
 द्विष्ट २ १, ८४, -उत्थ आपथ
 १, ७, ३१, वीथ २, १, ४७
 द्विष्ट, -भा आलिष्ट ३, ६, २ ४,
 वीथि १, ९ १३, आपथ १, १०,
 ५, द्विष्ट, -ध आलिष्ट १, ६, १
 १ आपथ १, १३, ५ द्विष्ट, -सन्
 आपथ १, १४, ७, १८, १, द्विष्ट
 समावृत्त प्रत- नाति गोष्ट ३,
 ५, ३७
 समा-वृत्त- ने गोष्ट १०, ४५

सम् आ (आ/अ)इ (व्याप्ती),
 षसमावृत्त आपथी १२ १२, १३,
 द्विथी ८, ३, ४२
 सम्-आ/धि, समाश्रयति वैथ २,
 ३, ६ समाश्रयत् आलिष्ट ३, १०,
 ४*७, शथ १५२ ३
 समा श्रित- त् क्त १, १०, ११,
 वीथ २, ७, १० ष, वृदे ५, १६,
 ८, ११७, ११८, नाति २, ७१,
 -भा या ४ १३, ६ ८, -गनि
 या ४, १३, -ते वैथ ६, ७ १३,
 -ती या ७ २६
 समाश्रित मात्र- -त्र याष्ट, २२
 समा श्रित्य वैथ १, ९, १३
 सम्-आ/श्लिप्, समाश्लेषति वीथी
 १३ २६ ४, समाश्लेषत् आपथी
 १२, २१, १८, १९, वीथी १३
 २६ ३, २६, ६ ९, द्विथी
 समा श्लेषवित्थ- न्यम् वीथी २६,
 ६ १०
 सम्/आत्, समासते वा १३, १० ष,
 सम्- आसत वा १७, ४ ष
 सम्-आसीन- न् शथ १०७
 समास- प्रष्ट सम्/अत् (क्षेपणे)त्
 सम् आ/सन्त् > समा सन्थ वीथी
 २५ ९ ३
 सम् आ/सद् > समा सति- ती
 वा ३, ४, ५०
 समा सत्- क्षेपु वीथी १७, ५६
 १०, ५७ २१*४, अत्राय
 समा-साथ माथी ५ १, ७ ३, आष्ट
 समासन- प्रष्ट १सम्- द्र
 सम् आ/सिच् षच् समासिच्चति
 काथी १५ ४, ३९, आलिष्ट ३
 ५, १ ४, ७, ३ ९, वीथि १,
 १ ४, समासिच्चै कौट १७, ४,

समासिच्चन्ति वीथि २, १, ४^६,
 समासिच्चत् षत्रयाथ ६, ३, ५,
 समासिच्चै वीथी २२, १७*१३
 समा सित्- क्त^९ काथी १८, ३, ६
 समा सिच्य काथी ५ ५, २४*४,
 वीथी
 समा-सेचन- नम् कौट १७, २९,
 -ने वीथी २२ १७ १३
 सम् आ/स्कन्त् > समा स्कन्-
 न् वा ३, १०, ६, १७
 सम् आ/स्था, समातिष्ठेयु लाथी
 ८, ६, २९
 षसमा स्वस्थ^{१०} कौट ३, ५, ४^६
 सम् आ/हृत्, समाहन्ति आपथी
 १, २०, २, ४, वीथी, समाहन्ति
 आपथी २१, १९, ८, वैथी १७,
 १३ ३, द्विथी १६ ६, २५, सम्
 (आहति) आपथ २, १६, १०,
 भाष्ट २, ७ २५, द्विष्ट २, ७, ३,
 समाहति द्विथी १, ५ ५१ ष,
 समाहत् ष^{११} वीथी ११, ८, १२,
 १३ ९, १६, २१ १०
 समा-हत्- त् नाति १, ५, १०,
 -त्ता वा २, १,
 षूलना हन्तवै आपथी १, २०, १,
 वीथी १, ६ १९*४, माथी
 समा हित- प्रष्ट एमा/धा द्र
 समा हृत्- समा/हृि द
 सम् आ/हृ समाहृति वैथ ४, ५
 ३, समाहृत् शथ ५ २९ ष, समा
 हृत् शथ ८, २, २, अथा २०,
 २१, समाहृत् लाथी ८, ८, १०
 समा हार- र आथी १०, ५ १७,
 अथा १६, ११, समा ३, ४०, वा,
 पाश १, २, ३१, -रे वा ५ ४,
 ८९ १०६

o) पाठे वृ २५५५ h द्र । b) =नक्षत्र दिनेष । c) उप भावे प्र । d) 'वर्ती इति D ।
 e) यत् । f) 'अति इति D । g) समात्, उत्थ इति द्विष्ट शेषः (तु शांथ ३, १, १) ।

समाहार-ग्रहण- -ञम् पावा २, ४, १.
 समाहारमहणा(ख-मा)गर्ध-
 षष्- -ञम् पावा २, १, ५१.
 समाहार-समूह- -हयो. पावा २, १, ५१.
 समाहार-सिद्धि-सप्र- -ञम् निम् ६, १ : १.
 समाहारी(ह-ए)काव- -त्याम् पावा २, ४, १, १२
 समा हार्य- -र्यं आधी ७, ८, २, -र्या मैष ९
 समा हृत,भा- -त्ता वा १, १, -त-
 -त्ताम् षष् २६, २, ७.
 समाहृत्य आधी २१, २२, ५, शौष; समाहृत्यऽप्यसाहाय्य वा १, १.
 सम्-आ ✓हे, समाहृतेषु जैश्रीका ४२
 समा हृत- -त्ता जैश्रीका १६७.
 समा ह्वान- -नम् जैश्रीका ३७.
 समि- -मि पा ६, ३, १३
 सम्-इष्, सम्- ष्वन्त ऋमा २, ४५१.
 संसमेति आधी १२, १, ५, वीश्री १७, ३८ २, हिश्री, वेताश्री २७, १^६, या १२, ११६^७, संसम् "मन्त्रि आधी ५, १, १२×४; वीश्री, संसम् (मन्त्रि) आधी ३, ७, ९, शाश्री, आधी ४, ५, ५^६, हिश्री ६ २, ६^६, संसमेतु आधी १, १०, ५, ७, ५, ३, ५, ६, २७×४, शाश्री, संसमेतु वीश्री ७, ९ १५१^१, संसयन्तु आशि १२०^१, संसम्

यन्तु आधी १, १०, ५, ५, ६, २७, वीश्री १४ : २५, फौसू ६८, १०, संसम् (यन्तु) आधी १, १०, ५, ५, ६, २७, शाश्री, संसमितम् आधी १७, १, ११; २५, ३, १४, आधी ३ ७, १२; १६, १५, ५^६, वीश्री १, ११ : ३५, १०, २१ : १५^६, माश्री, माश्री ६, १, ५, १०^६, वाश्री २, १, ४, १८^६, वीश्री १८, १२ : २७^६, हिश्री ११, ६, १^६, आशि २, ७, ३ : १२, ३, १०, ३ २०, भाए १, १६-१६^६, माए १, १०, ११^६, शुभ २, १, १७, समयाव आधरे १, २, १४^६, संसमापन् वेताश्री ३८, ५, समीपात् वाश्री ३, २, ६, १८ समपिण्यात् आधी ८, १४, ७
 सं-यद्-> संसयद्-यसु^६ -सु आधी ५, ५, १२, ६, ११^६, वाश्री ७, ३, ३, ५, ५, वाश्री.
 सम्-षष्(बष्) - पाव ५, ४, ३४, -य आधी २१, १०, ४, षष् ६, -यम् आधी १०, ५, २०, शाश्री ८, ४, २८, लाश्री, -यस्य विष ११, १, -या ऋषा १५, २७, १८, ५८, निष् २, ४ २७, शौष १८, १०, उष् ४, १४, -यान् ऋषा १०, ११, -ये उष् ८, ३४, -वेन विष १०, ७.
 सामयिक- वा ५, १, १०४, ४, ३४, -कम् वीश्री २६, ३३ २४
 समय क्रिया- -या विष ६, २३, २, १, १२
 समय-यद्- -दादि आपध १,

२३, ६, द्विष १, ६, १४.
 समय भेषु- -चा विष ४५, २८.
 समयया>या ✓कृ वा ५, ४, ६०.
 समया(य-आ)वार- पाव ५, ४, ३४
 सामयाचारिक- वा ५, ४, ३४, -कम् आपध १, ७, ३१, द्विष १, २, ८८, आपध १, १, १, -कम् आपध १, १, १, द्विष १, १, १, -केतु शौष ८, ११.
 समयाचार-यु(र्वि>)र्वा- -र्वाभि. षष् १, ४६, ३.
 समया(य-आ)दि- -री उष् ७, १८.
 समया(य-क)म्- -न्ते उष् ८, ३२.
 समयो(य-उ)य- -यम् उष् ७, १६
 सम् हृत्- पाव ४४८.
 संसम् इति^६ -ति पाव ३, १३, ३, आशि ३, ११, ३ : २५, वीश्री २, ११, ८, वीश्री २, ६, २२, निष् २, १७^६, -विष् अष् ८, १०.
 सम्-हृत्ऽसम् हृत् हिश्री १६, ८, ४^६.
 सम्-हृत्^६ - पाठ २, ११, -मूषे आधी १७, १८, १, निष् २, १७, वा ५, ८६^६, ६, १५, आशि ५५
 सम्-इष्, ष्, समिन्धेव शेष ८९, समिन्धे आधी ३५, वीश्री २७ ३ १४, माश्री १, ६, ५, ७, वाश्री, संसम् हृन्धे ऋष २, ७, ८, ताव १, ७०, समिन्धे संसम्

द) पाथे. वैष २, २६ संस्येव टि २ । ह) पाथे वैष १ द्विपाथि वी ३, ३१, ५ टि २ । c) सम् इति पाठ^६ यनि शेष (तु तैसा ३, ०, ६, ४) । d) सया. समितम् (सा १२, ५७ प्रम् माश ७, १, १, ३८, १२, ४, ३४) <> सम्पाद इति पाथे । e) वैष १ द । f) वप. = त्याम- । g) तस्येवमीयत् षष् प्र (वैष्णु पा स्वार्थे इति) । h) = समाप- ।

७३, ५, ८६, १८, ८७, २३,
 ष्य, समिन्धे पाठ २, ४, ३१^०,
 षंसमिन्धात्म्^० आपथी ५, ११,
 ६, २, ९, १, वीथी १४, २४
 ४०, २७, १०-११, हिथी १५,
 ३, १, षंसमिन्धताम् आपथी
 ४, २, १×४, वीथी, समिन्धन्
 या १०, ८^०, समिन्धीत् ष्य
 १, १२-१६, ३, षंसमिन्धीमहि
 शांथी २, ११, ३, आपथी ७,
 ७, १, १६, ७, ३×४, वीथी,
 वैथी १८, ४ ११^०
 समीधे वैताथी ५, १४^०,
 षंसमीधिरे आपथी ५, ६, ३,
 हिथी ३, २, ५६, समिन्धीमहि
 षीत् ८२, १३^०
 षंसमिन्धते आथी २, १६, ७,
 ३, १३, १२, शांथी, षंसमिन्धते
 आथी ९, ११, १४, हिथी ११, ७,
 ५१, आपथ, षंसमिन्धस्त्वापथी
 १५, १२, ७, वीथी ७, १४ ७,
 ८, ९, १२, १५ वैथी १५, २९
 ६, ७, हिथी ८, ७, २०^०.
 सम् इद, द्या- - षंद आथी १, ३,
 ७, ३, २ ६^०×, शांथी, - षंदम्
 आथी ८, १२, २४, ९ ५, शांथी
 १४, ३, १२, आपथी, आपथ २,
 २, ११^०, पाठ २, २, ११^०,
 आपथि १, १, २ ४^०, वीत्
 २, ५, १६^०, माण १, ६
 ११^०, हिथि १, ४, १^०, - षंदस्व
 आथी ३, १, ९ शांथी ५ १५,

३, १७, १३, ६६, ष्य ४०, ३,
 ४, या ६, १३, - द्या हिथि १
 - १०, - द्याम् वीथी २८, १ १६,
 २: २१, ३ १४, - दे आपथी
 १४, १९, ३, माथी १, ४, १, २१,
 ५, २, १४, २५, हिथी
 समिद-उम- - गो वाथी ३, २,
 १७, ३, २१
 समिद्व वत्- वत् निम् २,
 ११ १२.

समिद्वचवी- - वीम् आपथी
 १९, १८, ३, हिथी २२, २, ३,
 मीत् ५, ३, ४, - त्वा हिथी २१,
 २, ६, - त्वा हिथी २१, २, ३
 समिद्व- - सर्व-पक्षता- - ता श्रअ
 ३, १३.

समिद्वभृत्-मप्य- - त्त्स ()
 श्रअ ३, १३.

षंसमिदा (द अ) शि- - शि
 शीट १, १२, ८, शांथि १, २०, ५
 सम् इक्षि- - पावाग ३, ३, १०-८^०,
 - द्ये वीथी २, १८ ३९,
 ३, ७ १०, भाशि ९

सम् इष्- - पावाग ३, ३, १०-८^०,
 - इत् षंआथी ३, ६, २६^०, २७^०,
 ४, १२, २×४, ५, ६, १६ शांथी,
 आपथी १२, २३, ३^०×, १ वैथी
 १५, २९ ५^०, ७^०, - इत् षंदत्
 मथ २, ३, ४, ३, १२, वृदे ४ १६,
 - इत् आपथी ५ ७, १, वीथी
 २, १४ २०, हिथी ६ ५, ४,
 आपथ ४ ३, - षंहति आपथी

५, ६, ३, वीथी २, १४
 १५, वैथी २, ६-६, हिथी,
 - इत् ष्य: वाथी १२, ४, ३,
 आपथी ७, १४, ७^०, वीथी ४,
 ६-१४^०, १३, ४-७, १५,
 २८ ८, षंमाथी ७, ११,
 ७^०, माथी १, ८, ३, १७^०,
 वाथी १, ६, ४, २०^०, वैथी १०,
 ११ ३^०, हिथी ४ ३, ३२^०,
 - इष आथी १, ५, १५^०, २,
 ४, १७, ५, १०, ११×४, शांथी १,
 ७, १^०×४, ५, १६, ४^०, वथी,
 षंहि १, ५, १०^०, वीत् ५६,
 १२^०, - इष षंद्य आथी २,
 ८, ६^०, शांथी १, ७, १, माथी ५,
 १, २, ६, - इष्य आथी १, १३,
 ७×४, शांथी, वीत् २, ६, ६^०,
 शांथि २, ४, ५^०, आपथि १, १,
 ४, २^०, माण १, ८: १३^०,
 वात् ५, ३^०×, वैत् २, ७ ४^०,
 गोत् २, १०, ४^०, १^०, वीत्
 १, १२ ३८^०, ३९^०, द्राण्य,
 ४, २७^०, १^०, अस् १९, ६^०×,
 - ह्वा षंआथी २, ८, ७, ४, ५,
 ३×४, शांथी, काथी १२, ७,
 २०^०, - इषाम् शांथी ४, १०,
 १^०, वीथी २०, १६ ४३, ३१
 २०, २६, ३ १×४, आपथि,
 - इषि आपथी ३, ५, २, ६,
 १०, ११, वीथी ३, ६ १६, माथी,
 - इषो वीथी ३, १६ २५,
 २०, २३ ४३, वैत् १, १९ ३,

०) पामे वैष २ ३स्व समेधिवीय मना १, ६, ३२ टि द । ०) पामे वैष १, २२२८ १ द ।
 ८) षे दति पाठ १ वनि शोध (तु कौ १, १३ आपथी १६, ७, २) । ८) पामे वैष १ वषस्व मा २, १४ टि द ।
 ९) सया शांथि २, १, २९ सम्इदम् इति पामे । ९) = क १०, ११०, १ (तु आथी ३, २, ६) । ९) वस ।
 १०) इति वागम (तु पागम) । १०) वैष १ द । १०) तु पागम । १०) पामे वैष १ (परि) अविष्णानम् टि द ।
 ११) सया समिध (माश ३, ८, १, ४ न) < > समिद्व्य इति पाम । ११) सया समिध < > समिधम् (माश
 ११, ५, ४, ५ न) इति पामे । ११) पामे वैष १ समिधा या २१, १२ टि द ।

बोध २३, २०; -इथी शोधो
८, ११, १५; काथो ८, ७, १५;
आपथो ९, १२, १०; १६, १७,
७; बोथी.

सामिधेय्य^१- पावा ४, ३,
१२०.

सामिधेनी^२- नो माथी
१, ७, ६, २३; वाथी १, ७, ४, २६;
-नीः आथी १, २, २; शोधो
३, ७, २; १५, १२, ५, ११, १; १०;
१५, ५; काथो; -नीनाम् आथी
१, २, २७; ८, ६, ३; शोधो १,
१६, १५; २, ३, १६; ३, ११, ६;
आपथो; -वीम्यः आपथो २,
११, १०; ७, १३, १२, ४;
माथी; -नीम् शोधो ३, १६,
२३; आपथो ८, १४, १०; १;
२४, ११, ९; माथो ८, १७,
९; माथो ५, १, ४, ११; वैथी;
-नीपु आपथो १२, १९, १४;
२४, १, १३; बोथी; -न्यः आथो
१, २, ७; २, १९, ६, ४; शोधो;
-न्याम् शोधो ४२; -न्यौ
आथो २, १, २६.

सामिधेनी-रुच्य-रुच्यः
बोधो १०, ११ : १; -रुचाः द्विथी
२१, २, ४; -रुचन आपथो २१,
२, ३; द्विथी १६, १, २४.

सामिधेनी-सुच्छेयावार-
संप्रैष-संमार्ग प्रवत्-प्रयाज-वर्जम्
बोधो २८, ६ : १४; वैथी २०,
३५ : ५.

सामिधेनी-परिधा-
सीवा- न्या द्विथी १६, १, २५.

सामिधेनी-प्रभृति-
-ति आपथो ५, २८, ५; शोधो

१, १, १, ८२; -वीनि द्विथी ४,
३, २३.

सामिधेनी-प्रवत्- -ती
वाथी १, १, ५, ११.

सामिधेनी-प्रैषा(प-
अ)दा(दि)-आ)उपमाग-
-गाम्याम् काथी ५, ८, ३२.

सामिधेनी-विदृष्टि-
-द्वी आथी २, १२, ५; माथो
६, १६, ५.

सामिधेनी-संभव-
-न्यात् द्विथी २१, १, ७.

सामिधेनी-रथान-
-नस्य आथो २, १६, १.

सामिधेय्य(नी-अ)यं-
-थानि द्विथी १, २, ५९.

समिद्-कुशा(अ-अ)नित्यन्-
-नानाम् अप २४, २, १.

समिद्-परिधि-शाखा-पत्र-
-त्राभि वैष्ट ५, २ : ८;

समिद्-परिसमूहन- -नानि काथो
४, १२, १८.

समिद्-पर्युक्षण- -न्याम् वाथो ४,
१५, ७.

समिद्-पामि^३- -न्यः आपथो
१३, २२, ५; वैथी १६, २७ : २;

-लिः आथी २, ५, ६; काथी ४,
१२, १७, बौध २, ६, ३; शोध २,
९, १; आश्रि २, ४, ४ : १३;

कौस ४२, १४; बोध ३, ७, ११.

समिद्-पूठ- -न्याम् माथ १, ६,
३; वाष्ट ७, ७.

समिद्-प्रभृति- -ति माथो २,
१३, ७, बोधो २२, ८ : ७.

समिद्-सहस्र- -ना शोधो
३, १०० : ९.

समिद्-समातोपण - -न्याम् माथ
३, ३ : १३.

समिद्-समातोपणो (प-उ)पा-
वरोहण- -न्याम् माथ ३, ३ :
१३.

समिद्-सद्वत् - -न्याम् आपथ
१, २७, १; द्विथ १, ७, २६.

समिद्-सद्वत्-शिवय- -न्याम्
अप ३६, २, ५.

समिद्-अश्र- -अन् वैष्ट १, १२ :
१२.

समिद्-अन्^४- -न्येन काथी ५,
४, २४.

समिद्-अभाव- -वः आपथो
२४, ३, ८.

समिद्-अभ्याधान- -न्याम् द्विथी
१०, ५, ३४.

समिद्-अर्थ- -न्यम् अप २३,
७, १; -थे सु २, ३.

समिद्-आश्वे(अ-इ)प्रा(भ अ)
त्रि-काष्ठ-नृणो (प-उ)पठ-दुष्ण-

कल-गूढ- -न्यानि शोध ३२५.

समिद्-आदि- -दि काथो १०,
७, ९; -दिपु कथ १, ८, २१.

समिद्-अथा(य>)था- -थाः
वैथी २०, ३० : १५.

समिद्-आधान- -नाः वाथो
३, २, ७, ४३; -न्याम् आथो २,
४, २५; ३, ११, २२; शोधो;

-नात् काथो १०, ९, ५; २०, ४,
११; बोधो २, ७ : १६; ९, १२ :
१३, कौष्ट.

समिद्-आवा-पूर्वक- -कः
काथी ३५ : ७.

समिद्-आवा-मन्त्र- -न्याम् माथ
शोधो १, २, २३.

a) = मन्त्र-। b) वैष १ द्। c) सपा. आपथो २१, २, ४ परिधानीया इति पठि.। d) वध.।

e) षु^० इति पाठः इ वनि. शोषः (द्. माष्ट.)।

समिदाधान-वर्षुक्षण(ए-अ)
 नन्तर- न्व वापुव छप १५
 समिद्-आमन्त्रित- न्त वाधो
 २,२,११
 समिद्-आहुति- तिम्व वप्र २,
 १,१७
 समिद् उज(र>)ता- राम्
 वैयाधो ७,७
 समिद्-उररु- ल्केन वैध १,
 १३ ६.
 समिद्-वैधता >त्व- न्ये शुभ
 २,४२०.
 समिद्-धर् (<हा)र- न
 आपध १, ४, १५, द्विध १, १,
 १३४, -रा आपधौ २१, ६, ७,
 वीधौ १६, ७ १, २६, १३.
 ५, १० १४, १९ ४, २५
 ५, २७ १०, द्विधौ १६, ३, ७
 समिद्-धा(<हा)रिन्- री
 वीध १, २ ३२
 समिद् वव- चरि वीधौ २४
 ८ १८
 समिद्-वती- न्वा वीधौ २,
 १८ २५, २३, ८ १४४४,
 वैयाधौ ४ १ आमिध वीध २,
 १०, १८, -त्यौ माधौ ५ १,
 १, ६
 समिद्-मन्त्र- न्त्र वापु ७, १८
 समिद्-मा(र>)त्रा- वा क्त्र
 २ ५ १२
 समिद्-वक्षण-इध- धावि अप
 २३ ६, ४
 समिद्-विद्- द्वौ माधौ १
 ६, २, ६, ३ १७

सम् इधान- ०० न क्त्रा ८, ४४,
 -नः आपधौ २४, १३, ३, -नम्
 आपधौ ५, १, २, वैधौ १, ६
 ८, द्विधौ.
 सम् इधे वाधो १, १, ५, ११
 सम्-इध् माधौ ६, १, ३, २८, ४,
 २०४४, वैधौ
 सम् इध्पान,ना- न्त्र आधौ १,
 २, ७, वीधौ १, ४, १०, आपधौ,
 -नम् आपधौ ४, १, ३, वैधौ
 ६, १, ५, वीध ६०, २४,
 -नाम्मात् माधौ ८, ८, ११,
 -नाम् वीधौ २८, १ १५, २:
 २१, ३: १४, -नाम् वीधौ १,
 ४, ४, वीधौ ३, १, १, आपधौ,
 -नाम्मात् वीधौ ५, ९ १३१
 समिधमान-व(त>)नी-नीम्
 वापधौ १९, १८, ३, द्विधौ २२,
 २, ३, वैयाधौ २८, ४, वीध ५,
 ३, ४
 समिधमान-समिध-वत्य-
 (ती-ज)न्त्र- रेण वीधौ
 १६, १, १११
 सम् इध्व- न्त्र वीधौ २०, १६
 १०, -नाम् माधौ १, ७, ६, २२,
 २ २, १, २९, या ८, ४
 समिध्वी- वीम् माधौ १,
 ६ ५, १३
 सिसम्-वद्- न्त्र वीधौ ४, १४,
 २०, आपधौ ४ १५, ५, वीधौ
 ३, २१ १४, माधौ ४, २१, ६,
 -नाम्मात् वीधौ ८, २४, १, वीधौ
 २८ २०
 समिध्- पठि- स/वत्र द

समीक- पाठधौ २, २, २०, -के
 निध २, १७१.
 समीकरण- प्रय १ तम- द
 सम्/इध्, समीक्षते वीधौ २, १४,
 ११, वीधौ ३, २३ ५, २८.
 ७४४, माधौ, समीक्षते वीधौ ७,
 ११ १५, समीक्षन्ते आपधौ
 २१, १०, १०, वीधौ ७, ११
 १२, २०, द्विधौ, समीक्षे आपधौ
 ८, १४, १७, समीक्षत्व माप
 १, १०, १२१, समीक्षेत् वीधौ
 ८, १०, १, वीधौ २२, १ २१,
 व्याप १, १५, ८, आपध ४, ४
 समीक्षते माधौ २, १, ३,
 ४७, समीक्षयति वीधौ १०, ७,
 ३, पाठधौ १५५, वीधौ ३,
 १३ ११, माधौ
 सम् इध्- न्त्र वीधौ २, १५,
 १, -नाम् वैयाधौ १, २०, -ने
 वीधौ २२, १ २१, -नेन वीधौ
 २, ४, १०, वीधौ ३, ८, ५
 सम् इध्- न्त्र वीधौ ३२, ११
 सम् इध्-माग ना- न्त्र काप १५,
 ५, माप १, १७ ५, वीध
 १४, २७, -नाम् वीधौ ७, ६,
 २४१, -नाम् वापु २, ३, ३,
 -नाम्मात् माप १, १०, १३,
 १४, १०
 सम् इध्- न्त्र वीधौ १३,
 ८ १२, आपध २, ५, ३, द्विध
 २, १ ८३, -नाम् आपधौ १५,
 ६, १३ माधौ ११, ६, १०,
 द्विधौ २४, २, १०
 सम् इध्- न्त्र वापु २, ३, ३

a) वत । b) उष उप भगिष्यदर्थे अण् प्र (पा ३, ३, १२) । c) = क्व । d) वस वृष = प्रादेश-
 प्रमाण । e) = मन्त्र । वत । f) सामिधनीनाम् क्त्रा यथाक्रम चतुर्थी- वैयाधरी- च क्वम् (तु वापाभा
 २७३) । g) न्त्रे इति चोस देवताधिक्य । h) = आहुति । i) समि इति अन्त्यु । j) वैप १ इ ।
 k) पाठ (तु अण्यु, चोस) 'नोक्षमा' इति शोध (तु देवताधिक, न [मा ४, २३] च) ।

सम् ईश्य आश्री ४ १६, ६x५, वीथी सम् ई(क्ष्य>)क्षपा- -क्षपा श्रया ८,४०	समीरिता(त अ)न्त- स्ता. या ४,१३. सम् ईरितुय् अत्र ६१, १, २५ समीर ^० - पाग २,१,४०, ४,२,८०, समीर्यं- पा ४,२,८०. समीर ^० वन- पा, पाग ८,४,२९ सम् ईईह, समीहते अत्र २०,७,११, ७०,१२,६ सम् ईउश्, समुन्नन्ति वीथी १५, ५ २६, हिथी १४ १, २८, समुन्नत आपथी ४, १०, ४, माथी ४,१५,३, माथी सम्-उक्षित- -उम्ण ^० आश्री ५, ५,११, ९, ५, ५, हिथी १४, १,३८	समुच्चय दर्शन- नम् मीह १२, ३,२२, समुच्चपा(य अ)थं- थें या १, ४, ९ समुच्च-वित्य वीथी ६, १४ १८, १७: १६, भाथी. सम् उच्च ^० वृि (< थि) > समुच्च रूप- न्या वत्र ३, ३, ८ समुच्च वित्य -उम् या २, २४ समुच्च वित्य वीथी १५, १६:७ स ^० मु(अ>)क्षा- -आभि माथी २ १, १,३८, माह १, १९,८ सम् उच्च ^० वृत् (उदने) > समुच्च- कसुम् लाश्री ८,३,५ सम-उत् ^० वृत् ^० समुत् कर्ष- पाग ५,४,३४ सामुत्कर्षिक- पा ५,४,३४ समुत्कर्षा(र्ष अ)वृत्- ते विप ५४, १४ समुत् कृत्य वीथी १४, ६७, हिथी ७,५, १९ सम् उच्च ^० कम् समुत्कामन्ति हिपि ३ ६१ ^० समुत्कस्था हिथी १५,८,५१ ^० समुत् क्रम्य आपथी ७, २१, ६, ^० वीथी, भाथी ७, १४, १ ^० , हिथी ४,४ ९ ^० समुत् कान्त- न्तानाम् पाथी ४, ५ ६ सम् उच्च ^० कुञ्ज समुत्कोत्तन्ति वीथी १०,५८ ४,११,७ १५x५, वीथी समुत् कुञ्ज वीथी ११,११ ५ सम् उच्च ^० क्षिप्, समुत्क्षिपत् कदे ४,२४
समीच- पाठ ४,९२ समीची-समीचीन- सम् ^० वृत् द समीन- २सम- द समीप ^० - पायवा ५, १, १२४, -पम् कम ३,२,१, विष १,३०, -पाव पावा १,४,२३, -ये काथी ७, ९, २२, जेथीका २४, कौए, पा २,४,१६, -वेन जेथीका ९४ सामोप्य- पावा ५, १, १२४, -प्ये पा ६,२, २३, ८, १, ७, -प्येन आशि ८,५ समीप म- गा शय २११ समीप वस()कम् १,८,१५ समीप स्थ- -स्ये जेथीका ७४ समीपा (य अ)वसित ^० - -उस्य काथी ८,९, ८ समीपी ^० वृ ^० वृ ^० , वृ ^० वृ ^० पावा ५,४,५० समीपसु- सम् ^० वृत् समी भयत्- प्रभु १सम- द सम् ^० ईह समीरयति या ७ २४१, स ^० सम्(ईह) श्रय २ १०, ५९, वृत् ७,१४, स ^० समीरयत् ^० आपथी २१ ९, १५ भाथी ३, २, २, १५ हिथी १६, ४, १३, समीरयत् शौच २, ३० ^० समीरयेत् नाशि २ ८ ९ सम् ईरम-> ष्वा (ए अ)सि- पाग २,२,३१ ^० सम् ईरित- वा श्रय ३, ५ समीरित वर- र वा ५ २५	सम् उच्च ^० चद्, समुच्चरन्ति या ६, ११, समुच्चैरत् नाशि २,४१ समुच्च चरण- नम् आशि १,१ समुच्च चरण- के पा १, ३, ४८ सम् उच्च ^० चि (यवने), समुचीयन्ते वीथी २०, १ ८ समुच्च चय--य काथी १,८,७,२१, १४,३,५, भाथी, -यम् भाए १,४,६ मीह १२, ३, ३८, ४, २, -यस्य मीह १२, ३, ३३ -याव मीह १०, ७, ६८, -यं अत्र ६३, ५, ५ श्रया ६ १९ माह २, ९ पा ३ ४, ३, ५, मीह १२ २, १०	

द) = लिङ्ग । पैप १ २२३ ह द । b) उप <अव/सो। c) सपा वै २०,४,१० तुमीरय

इति, शौ ७, २३ २ सुमीरयत् इति च पाठे । d) तु पागम । e) अर्थ ष्य च ? । f) = वनस्तति वेद ।

g) = वस । h) विप (धिरत्) । तु स मुख [पागे] । i) धान सिर समुत्तम् इति । j) समुत् इति क ।

k) गले वस । l) अत्र भाथी ७, १६, १३ समुत्कम्प इति पाठे ।

सम्-उत्/खन् > समुद्-त्वाय कौट
६९, ९; ७१, १०.

सम्-उत्था(त्/रथा), समुत्तिष्ठति
अप ७०^१, ११, १५; समु-
त्तिष्ठन्ति बौधौ १८, १२; १३.
समुत्थापयेद् बौधौ २४, १५;
१; १८; ४.

समुत्-वाप्य आधौ ४, ६, ३.
समुत्-वाप्य बाधूधौ २, २२; २; वृदे.
समुत्-पित- -कः औधौका १७३.
वाति १, ५, ८; ९; १०^१; ११;
-त्म् आगिण २, ५, १; ३१;
४८; जैश २, ९; ३५; अप;
-तान् अप ६४, १०, ७; -ते
बौधौ २८, ११; ८; शंश ५६, १.

सम्-उत्/पत् (पत्नी), समुत्पत्तन्तु
बौध ४१, १; १०३, १; अप.

समुत्-पात- -त्म् माश २, १५, ४.

सम्-उत्/पद् > समुत्-पत्ति- -तिम्
विष ५१, ७२.

समुत्-वच- -कः वृदे ६, ६२; -आनि
बोध ४, ८, ५; -शै वाच २७, १०;
वैष ३, १५, १३; वाति २, ६९.

सम्-उत्/पू > समुत्-पूष माश २,
१०, २.

सम्-उत्/सद् > समुत्-सध- -ले
वैश ६, १; २०; ४; ८.

सम्-उत्/सृज्, समुत्सृजेत् औधौका
१६; कप ३, १, ८^२; अष ६९, ८;
३; विष ८१, २१.

सम्/उद्, वृद्, समुत्ति या २, १०.
२ सम्-उत्/पाश २, १, २०.

सम्-उद्/क- -कः गा २, १०.

समुदन्त- -न्तम् आधौ २, ३, ८;

आपधौ ६, ६, २; भाधौ ६, १०,
७; माधौ १, ६, १, १८; दिधौ ३,
७, २९.

सम्-उद्-आ/कृ > कृ(त्)ता-
-तानाम् बाधूधौ २, २०; १.

सम्-उद्-आ/यु > समुदा-युव-
-वम् बौधौ १०, २५; १२ x ४.
समुदा-युव बौधौ ६, ८; ४; १७,
४०; २७ x ४; आगिण.

सम्-उद्-आ/हृ, समुदाहरन्ति निम्
४, ९; १८; समुदाहरेद् अप
७०^१, ११, ३४.

समुदादिषते आधौ ८, १३, ३१
समुदा-हन्, वा- -वम् कप १, ३,
११; अष १०, १, २२; विष ५८,
१०; ११; -जाः वृदे २, ८९;
माति १, ६; -तौ शेष २१०.

सम्-उद्/हृ, समुदेति धा ७०^१,
११, ११; १३.

समुद्-वाप- पाश ५, १, ९०^१,
-यः पावा १, २, ४५; भीष ११,
४, २; -पस्व पावा २, २, २९;
६, १, ९; ८, ३, १; -व्याद् पावा २,
२, २९; -ये पावा १, १, १; ७;
८, २, १; भीष ४, २, २७.

सामुदाय- वा ५, १, ९७.
समुदाय- -पस्य पावा १, २,
३१.

समुदाय-नामन्- -म काधौले
६; ७.

समुदाय-विकार(त्/अ)धे-
-व्यम् पावा १, ३, २८.

समुदाय-बहुमीहिन्व- -न्वात्
पावा २, १, ५१.

समुदाय-विकार-पट्टी- -प्याः
पावा २, २, २४.

समुदाय-वाच- -वः पावा ४,
१, १५३.

समुदाय-सामर्ष- -र्ष्याद् पावा
२, १, १.

समुदाया(य-आ)देता-त्य-
-न्वात् पावा ६, १, १; ९.

समुदाया(ग-थ)धेवर्ष- -व्यम्
पावा १, २, ४५.

समुदाया(म-अ)धे-संयोग-
-वाद् भीष ९, २, ५१.

समुद्-इत्- -याः विष २०, २६;
-वाच् बौधौ १८, ५०; २०; २१.

समुदिता^१ या १४, १८^१.

समुदितारम्^१ या १०, ३२.

सम्-उद्/ईद्, समुदीयेते माति १३, १
समुद्-ईरित- -वम् कप २, ८, १७;
भीष ४, ६, ९; ८, १४.

सम्-उदे(द्-आ/हृ) > समुदे(दा-र्द)
त- -तः आपध २, १७, ५; दिष
२, १, १०७; ५, ३४; -सम्
आपध २, ५, ७; दिष २, १, ८६;
-तान् आपध २, १, ८, ११; २०,
२; दिष २, ५, ६३; ८९.

सम्-उद्/गम् > समुद् ग- >
श्रे(द्-इ)न्तु- > ग्निह (न्तुद्)
ग्द-वात्(यु-अ)ग्य (ति-अ)र्क-
बधी- -दीम् अष ६८, २, १.

सम्-उद्/गृह् > समुद्-गृहीत-
-वम् दिधौ १२, ६, १८^१.

समुद्-गृहन्- -हृद् वैधौ १८,
१४; २३; दिधौ १३, ६, १६;
-हृन्वः दिधौ ७, ५, ६.

a) समुत्तिष्ठः इति लासं. । b) मस. । c) वैष १६. । d) तु. पागम. । e) (सम्-उद्
√हृ) > समुद्-गृह् > -या इति शेषः । सस्य. इतिपिः > राधौ दावति शेषः । f) समुदित-व्याद्- (महत्-जल-
तुक्) > -व्याद् इति शेषः (वैश. रु. <सद्/उद् इति, I'W. प्रथ. <सम्-उद्/इ इति) । g) = पूर्णान्द-
वा उदित-वन्- वा । कथ. । h) इत्, > मलो. कम्. । i) अय. आपधौ १७, २०, ७ उच्यते इति पाशे. ।

समुद्-गृह वीथी १७, १८ : १५,
१८; द्विथी.
सम्-उद् √ गृ (निगरणे) > समुद्-
गोमे- णं वा १, १०.
सम्-उद् √ दिश् > समुद्-दिश्य
अप ७२, ३, १.
समुद्-दिष्ट, ण- -ष्टम् अप ८, १, ६,
शष १००^३, २२२, -ष्टा शेष
५३, -ष्टा शेषा १४, १
समुद्-देश- -त् वीथी २५ १९-२,
-दे अप ७०^३, ७, २३, -सेषु
अप ७१, १२, ५
सम्-उद् √ द्रु, समुद्द्रवन्ति वा २,
१०
सम् उद् √ घ (< ह) न् > समुद्-
घन्, ता- -रुष्य आपथी २, २, ५,
-ताभि शेष ६१^३.
समुद् घल्य भाथी २, २, ७, आसिष्ट
सम्-उद् √ भू (< ह), समुद्धरेत्
अप्राय ५, १, विष २३, ४४
समुद्-रुष्य काथी ७, ६, १०, नाथी
सम् उद् √ भू, समुद्धपति अप ७०^३,
११, २३.
समुद्-नूत- ता अप ६१, १, २३
१सम्-उद्य स √ वृ द्
२सम्-उद्य सम् √ वृ द्
सम् उद् √ यम् > यम् आपथी
१६, ३, ७, १९, २९, १, द्विथी
सम्-उद् √ यु, समुद्यौति द्विथी २,
४, २६, १०, १, ४३^१
१समुद्- पाग ३, ४, ७४, ४, ३,
१२७, कि २, -द् आपथी ४,
१३, २^१, वा ३, ६, १२, २४^१,
काथी, निवृ १, ५ ६, कौष

३ २, १४^१, शीष्ट ३, ३,
१०^१, मुनिप १, ३, ५, ६,
या २, १०^३, -द्दम् आपथी ३,
११, ६, ४, ७, ४, ५, १३, १५, ६,
२, ११^१, शीथी, आकरी १८,
१५, २१^१, द्विथी १३, ६, ३१^१,
-द्दम् आपथी २, १२, २^१,
काथी, वाधूथी ४, ६४ ६, ३,
मु ७, ५, अप २१, ४, ३, -द्द
शीथी १८, २२, ७^१, वाथी ३,
३, ५, ६^१, मु ४, ३, आद्य ३, ४, १,
कौष, -द्दम् आपथी ४, ७, ४, ८,
६, ६, ९, ३, शीथी, द्विथी ६, ३,
२, अयाद्य ६, २^१, सु ५४,
-द्दम् आपथी १६, २५, २^१,
वीथी, सु २८, ३, वीथि २, ९, ५,
अप १०, १, १३, -द्दम् काथी
२६, ५, १०^१, आपथी, कौष
७४, ६, -द्द्रे आपथी १, ११, ८,
३, ७, ८, ४, ६, ३, वाथी, वीथी
९१८, ४२ : २०, ४३ ७xx,
सु ७, २९, वीथि २, ८, ४, वैशु ७,
६ : १०, अप ५०, २, १, २,
वाप ८, १५, -द्द्रेण शीथी १, ७,
२, २३^१, अप ११, ३(२)^१,
या २, १०, -द्द्रेषु विष १, १४,
-द्द्रेथी आपथी १२, १८, १७,
वीथी १४, ७ १२, २६, ७
१५, वाधूथी
सामुद्- -द् वीथि १, १०,
१३, वैष ३ १४, १२^१, -द्दम्
कौष १९, ९, -द्द वाधूथी ३
७६-२३, द्विथी १४, ३, २२,
-द्दम् आपथी २०, १५, १०,

वीथी १५, १५ १७, २५ ८;
-द्द्रे वा १३, ५
सामुद्- -द्द्रे विष १, १४
सामुद्द्रक- पा ४, २, १२७
समुद्द्रुधि- (> सामुद्द्रुशक-
पा) पाग ४, २, १२७
समुद् (ग>) गा- -गा अप १, १०,
५, वृदे ६, २०, -गाय वैशु ५, ८ :
५, वाप २३, २१, शष ४१२,
वीथि १, ५, १२६, सु १४,
-गाया वैष ३, ८, १^१.
समुद्गानवी-स्तान- -गाय
आसिष्ट २, ७, ५ १२, १३
समुद्-गृह-भेदक- -क विष ५,
११७
समुद्-च्छन्दस- -न्द वनिष् ७
४५^१
१समुद् ज्ये(ष्ठ>) ठा^१- ष्टा कौष
३, १३, १७, शीष्ट ४, १४, ५,
शष २, ७, ४१, वृदे ५, १७५^१.
१समुद् तस्य (.) आपथी २, १३, ७,
वीथी १३, ३९ ७, आसिष्ट.
समुद्-तीर- -रेषु आसिष्ट ३, ४,
५ ९
समुद् पण्य-जीविद्- -वी वैष ३,
१४, १२
समुद् पण्य-मत्स्य-जीविद्- -वी
वैष ३, १५, १
समुद्^३ प्रवा(द> वा)- वा निवृ
८, १ ३५
समुद् पाल-सिद्धि- -दिम् विष ७८,
२५
समुद्-पोनि- -नि वीथी १०, ५७
३^१

द) भृतामि इति शोध (तु शष ५६) । ह) वैष १६ ।
१०, ५ समुदे इति पाठे । द) सपा लि ५, ५, ११ 'द्दम् इति पाठे ।
f) सङ्घट सम तै २, ४, ८, १ प्रथिव्या इति पाठ । g) इदमाचर्षेणु म । h) = जाति विशेष- । i) तु पाठम ।
j) पान्थाम् इति ३A । k) = छन्दस्- ।
वैष ४-अ-५८

समुद्र-सङ्घवन- नाद वैष ३, १५, १.
 समुद्र-व(त>)नी- नी वैष ३,
 १६।८.
 संसुद्र-न्यचर- -घसम् वीथी
 १८, १७: ४.
 समुद्र-संभाव- नम् वीथ १, १, २०;
 २, १, ४१.
 समुद्र-ससक- नम् शंघ ११६: ८.
 संसुद्र-सम- -नम् वीथी १०,
 १, २; वीथी १६, ५, १९.
 समुद्र-सादय- श्याव सु ७, १.
 समुद्र-रथली- (> सामुद्ररथलक-
 पा.) पाग ४, २, १२७.
 समुद्रा(द-आ)वि- विदु श्रमा ७,
 ४८; शौच ४, ५४; -दीनाम्
 श्रमा ३, २, २१.
 समुद्रिय, या- वा ४, ४, ११८; -न्यः
 अवाव २, ५; शप ३७, ५, ६;
 -न्यम् आपथी १६, १२, ११९;
 वीथी १०, ४: २०; २३, ३९:
 १७; माथी ६, २, ६, २०; दिथी
 ११, ५, ७; आभिर २, ५, १०:
 ३५; -घा: आपथी १८, १२, ३;
 वीथी १२, ८: १०; दिथी १३,
 ५, १४; नीय ५, ५, ६; काय:
 या १२, ३०; -माणात् वीथी
 २६, २: १; -वाव वैष २, १: ५९.
 समुद्री- -द्विघ: या १२, ३०.
 संसुद्रे-(>)धा- -धा वीथी ८,
 १४: ४०; वैथी १६, १८: १७;
 दिथी २, ४, २२.
 संसुद्रप-द्रण- -द्रणम् वीथी २, २,
 ५, ६; पाण १, ३१; -घा: माथी
 ६, १, ५, ३३; पाण ४, ३.
 संसुद्र- -> सामुद्रि- -दि: शुभ

३, १०.
 संसुद्रंरसया^१ आपथी २१, १०, २९.
 संसुद्रंरसाम्^२ वीथी ३, २, २, १७९.
 समुद्र-कुक्षि- प्रम्. १ समुद्र-द्र.
 सम्-उद्/यप्, समुद्रपति दिथी ७,
 २, ३८.
 सम्-उद्/वम् > समुद्र-धाना^३-
 -नम् वीथी ७, ३.
 सम्-उद्/वह, समुद्रदेव कय १, ६,
 १४.
 सम्-उन्/नी > समुन्-नीय वीथी
 ७, १३: १०xx; माथी.
 सम्-उन्/नुद् > समुन्-नुक-
 -नम् वा २, २४.
 सम्-उन्/मृज्, समुन्मृष्टे वीथी
 १२, ११: १; समुन्मार्दि माथी
 १, २, ४, ५xx; वीथी १, ६, ३,
 १८xx; दिथी १३, ५, ३५; माथ.
 समुन्-मृष्ट- -हे वीथी १०, ५८: ४;
 ११, ७: १५xx.
 सम्-उप/कटुप् > समुप-कृता-
 -ते वीथी १७, ६, २.
 सम्-उप/कम् > समुप-कम्प माथी
 ७, १६, १३.
 सम्-उप/गृह् > समुप-गृहा वैथी
 १२, १७: १७.
 सम्-उप/लुप् > समुप-लोप- -यम्
 पाग १, १, ३७६.
 सम्-उप/नह् > समुप-नहा वीथी
 २५, १: २xx.
 सम्-उप/बुद्, समुपबुद्धयेव नाथ
 २७, ६.
 सम्-उप/मन्त्रि, समुपमन्त्रवते
 वापथी ३, १५: ३.
 सम्-उप/या, समुपयति नाथि २,

८, २८; समुपमान्त्रि वप ७, १, १३
 सम्-उप/लिप् > समुप-लिप्प काय
 १७, २.
 सम्-उप/यह् > समुपो(प-क)ह-
 -हे माण ३, १२, १.
 सम्-उप/चिश् > समुप-विश्य
 वीथी १०, ११, १४.
 समुप-विह- -हेषु दिथी १३, ६, २५;
 १४, २, १४; गोप ३, १, १६.
 सम्-उप/सद् > समुप-साध वीथी
 ६, ३०: २८.
 सम्-उप/सु > समुप-सुत- -ते दिथ
 २, ७, २, ५.
 सम्-उप/स्था > समुप-स्थाप वीथी
 १७, ४२: १५.
 समुप-स्थित- -नम् वप ७१, १३, ४;
 -ते वप ५२, १६, ६xx; वाप
 २५, १२; शंघ २८०.
 सम्-उप/स्पृग्, समुपस्पृशेव वीथ
 १, ५, ७४; आभिर २, ६, १२०.
 सम्-उप/हन् > समुप-हन्त- -ते
 काय ७२, १.
 सम्-उप/ह्ते, समुपहृतेव माथी ८,
 १, ८; वीथी २, ३, १२९.
 समुपहृतेव माथी ४, ३, १३.
 समुप-ह्व- -य: आपथी २१, १०,
 १०; वीथी ४, ४, १९; वीथी २,
 ४, ११.
 समुप-हावम् आथी ६, ३, १९;
 वीथी १०, १, २३.
 संसुप-भूव- -ता: वीथी ८, ९, ३;
 वीथी ९, १२, ९; वीथी.
 समुप-भूय वीथी ३, ८, २५; आपथी.
 सम्-उपा(प-आ)/गम् > समुपा-ग-
 त- -नम् शंघ १५२: ६.

a) वैष १ द. 1 b) = आभि-विशेष-। c) समुद्र-रसा- (विप. L पृथिवी-) > -नवा, -साम् इति
 यत्. शोच: (द. ०.)। d) = समुद्रना-। e) सम. आपथी १८, १६, ८ उन्मार्दि इति पाठे.। f) पाठे.
 १५७१ k द. 1 g) उप-लोपम् इत्यपि द. पाठम्.। h) परतरं पाठे.।

सम्-उपा(प/अ)श् (स्यातो), समु-
पात्रनुवे वाच ४, ३२; इदे ७,
१०६.

सम्-उपे(प/इ), समुपैति यथा
१८, ५१.

सम्-उत्त-, ष्य सं/वृद्.
सम्-उत्तु > सम्-उत्तित- -ता-
ग्याम् वीथी २१, १ : १.

सम्-उत्तु (पूर्णे) > सम्-उत्त-
न्वी वा ४, ४.

सम्-उत्तु/लिष्, समुत्तिष्ये
आमिष् २, ५, २ : ३; छ १,
६, १०.

सम्-उत्तु/लिष् > समुत्तिष्
माथी ३, ५, १४, द्विथी.

सम्-उत्तु/लुप् > समुत्तु-लुप् काथी
८, २, १०, वीथी.

सम्-उत्तु/लुप् (दोडे), षसमोप^० माथी
३, ११, १६, आपथी ९, ६, १०,
माथी ९, ८, ८, माथी ३, २, ६,
वैथी २०, ११ : ८, द्विथी १५,
३, १६

सम्-ओप(ए >)न्वी- न्वी अत्र
१२, ५

सम्-मुष्क- -स्यग्याम् वीथ २, १,
७४, ३, २, २.

सम्-उत्तु (प्रावणे) > षसम्-ओह^०-
हे अप ४८, १०५, निष २, १७.

सम्-मुहूर्त- -जानि आमिष् २, ६, ३ :
२, ५, ७, १०, वीथ २, ५, १६-
११

सम्-मूल- ष्य^० आपथी १, ७, २, ८,
१३, ११, १६, १७, ७, १९, ११,

६; काथीव, -एः वय १, २, २,
-हान् माथी ५, २, १२, ४, आए
२, ७, ५, -हानाम् आपथी १,
५, १२, माथी १, ५, ११; द्विथी
१, २, ६५, -हेव माए १, १२, २,
-हेव माथी १, १, १, १०; -है-
माथी १, १, १, ५२.

सम्-मूल-कापम् पा ३, ४, ३४.
सम्-मूल-पात्रम् पा ३, ४, ३६.
सम्-मूल-कल-शपि(र >)नी-नी
अए ५२, १, १५

सम्-मूल- सं/वृद्.
सम्-ऊह, समुहति आपथी १२,
२५, ५, वीथी १२, ४ : ७, १३,
३४ : ३; ६xx, द्विथी, समुहन्ति
माथी १७, ६, ३; आपथी १, ६,
११; समुहामि माथी ५, १, ९,
३५; षसमुहताम् आपथी ४,
१५, १; माथी ४, २१, १,
द्विथी, समुह अयाम ४, ३१^०,
समुहेत् आपथी ९, १०, १६,
माथी ५, १, ९, ३५, छ ३, १०
३, निष् ५, ५ : २५, द्विथ १, १,
१३०^०.

सम्-मूल-सम्-मूल-पात्रम् पा ३, ४, ३४.
सम्-ऊह- पाग ५, ४, ३४; -ह
निष् ९, २, २४, ५ १३, अर्था
२५, ५१^०, पा ४, २, ३७, -दा-
अप ६४, ७, ८, -दात् छुमा १,
१५, -दान् अप ६८, १, १३,
-हे वा ४, ४, १४०, पावा ५,
२, १२२, -हेव छुए ३, १२^० ८.

सामुहिक- पा ५, ४, २४,
-कानि निष् ५ ६ : १४.

सम्-काम- -गः छुए ३, १० :
६; -मस् छुए ३, १० : ५
सम्-कव- -रवात् उनिष् ७ :
४४.

सम्-कव- पा ५, ४, २२.
सम्-कामन्- -म निष् ८, १२ :
१४.

सम्-कव- -हत् निष् ९, ५ : ३८,
-हत् द्विथी १२, ६, ११, माए १,
४, ६, बाए.

सम्-कहन- -नस् वीथ १, ३, ३;
शोए १, ७, ११.

सम्-कनी- -न्या आपथ १, ४,
१८, वीथ ३, २, ९, द्विथ १, १,
११७, -न्या वीथ २, ३, ५४,
-न्यै वीथ २, ८, २४.

सम्-कन्य(नी-अ)वकास-
-वे वीथ २, ८, २४.

सम्-कनो(न-उ)कलेपनो(न-उ)कन
वा(न-अ)विष्ण- -णम् वाए
१४, ४.

सम्-कन- -हा वीथ ३, १, ५,
२, १^० ६.

सम्-कन- -केन आपथी १७,
२६, १७.

सम्-कन आपथी ५, १९, २; वीथी.
सम्-कल- पा ३, १, १२१,

-षस काथी ८, ६, २२^०;
आपथी ११, १४, १०^०, वीथी
१७, २९^० १३, वैथी १४,
१३ ६^०, द्विथी १०, ३, ४^०,
-कम् वीथी १७, २९ : १०^०,
द्विथी १२, ८, ११, आपथ १४,
११, द्विथ ४, ४२^०, अय १२,

a) स्या समोप <> समुह इति पाठे । b) = अतः । c) वैप १ इ । d) कचित् वा, किति ।
e) स्या आपथ १, ४, १८ परिसम्^० इति पाठे । f) = साम विशेष- । कम् । g) = अजाजनी- । मने करणे
वा कृत । h) = इति विशेष- । अय, मने अए द । i) स्वार्थे ष ह्रस्व (पा ७, ४, १३) । j) पाठे. इ
२४७३ C इ ।

४, -हरय वीथु १८: ९,
समूह परिचाय्य- २वी वीथु
१८: ९.
सम्/सम्, सम्/सम्, सम् (अन्त)
इदं ५, २०५.
सम्/सम् वीथु १४, ४: २२,
१०-२०, सम्/सम् निसू ६,
१०-२०, सम्/सम् अण १,
१, ५५, सम्/सम् निसू ७७,
६५, सम्/सम् वागाम् निसू ७,
११: १२.
सम्/सम् निसू वैताथी ३०,
१०५.
सम्/सम् निसू १४, ४८५
सम्/सम्- निसू वीथु ६, ५,
१५, या ११, ८५, -निसू वा
५, १०, -निसू अण ४८, १०५,
निसू २, १०५, -निसू वा ९,
२०.
सम्/सम्-निसू-सम्/सम्-
-निसू अण ५१, ४, ४.
सम्/सम्-> निसू-निसू-
५, २, १४, २४, -निसू वीथु
५, १, १, ३, -निसू वीथु ३, ५, ४
निसू सोम- निसू वीथु
२ १०: ४
सम्/सम् वीथु ३, २, २, २८.
सम्/सम्(स)- निसू अणिसू
३, ६, १ १२, ३ २५×, वीथु
१, ९ ८, १२ ९, १६-२६
सम्/सम्-निसू १, २ ४, ९
सम्/सम्, सम्/सम् वीथु १६ १,
६, अणिसू २, ५ ५ १२, अण,

सम्/सम् वीथु ४, १९.
३×, सम्/सम् अण ५९, १,
११, विथु ७२, ४, निसू/सम्/सम्
वीथु २, ९, ९, ४, १०, ३;
वीथु २, १: १०, १८, अणिसू,
सम्/सम् वीथु ४, १९:
३, ६, ९, १२; सम्/सम् वीथु
१४, १६-१९५, २३, १: ३६.
सम्/सम् वीथु ३, १०, ३५,
गण २, १०, ४.
सम्/सम् वीथु ९, ३, १०,
वीथु १४, २४, ३, ६५, १,
१५, १८×; वीथु, सम्/सम्
वीथु ३, ४१ ३९, सम्/सम्
वीथु १४, २९: १०५, निसू
२, ३-२५×, अणिसू ७२५,
सम्/सम् वीथु ४, १, २४५,
सम्/सम् अणिसू २, ६, १:
३२; सम्/सम् वीथु ११,
१०, १, १६, १, ७, वीथु, या ८,
६, सम्/सम् वीथु ४, ८६-
८, १५, २३, सम्/सम् वीथु
४, २, ५६
सम्/सम् निसू २, ३ २६
सम्/सम्(न)- वीथु- वीथु वीथु
४, १८, १५.
सम्/सम्-निसू-> निसू-निसू-
-निसू वा १, ७
सम्/सम् वीथु १६, २९, ७
निसू-निसू वीथु १, २१-
२४, अणिसू ३, ११, १, अणिसू
सम्/सम्-निसू-निसू अणिसू २,
२८, १, वीथु २, ६, १, -निसू

वीथु ४, ६४: ७; वीथु ३,
२, ९९; वीथु, वीथु २, १, २९,
-निसू वीथु २, ९, १५, -निसू
वीथु २४, १३, ११; -निसू
वीथु १, ५, ८४, -निसू वीथु
३, १, २३; -निसू वीथु १४,
१, ३८५, -निसू वीथु २, १: ३२५.
सम्/सम्-निसू वीथु १३,
४१-१२
सम्/सम्-निसू-निसू वीथु २, १५:
४, वीथु १८, ०, १०, वीथु
२०, वीथु, -निसू वीथु १८,
४, ५७, -निसू वीथु १७, ४१:
१८, अणिसू २, ८, ९, अणिसू
१, ३, ४-१२, अणिसू २, २१-
१६, -निसू वीथु ३, ४१
३९, -निसू वीथु २२, १ ४,
-निसू वीथु ३, ११, ३, वीथु
१, २९: १४, २, १-८, ३,
१ ३, वीथु.
सम्/सम्-निसू-निसू वीथु १,
६, २५, -निसू अणिसू १,
५, ४: १, अणिसू १, १६ १५
वैथु १, २०, ३.
सम्/सम् होम- निसू वीथु ५,
४, -निसू अणिसू १, ६, २ १-
सम्/सम् होम(न-अ)-निसू-
निसू अणिसू ३, २, ६
सम्/सम् होम(न-अ)-निसू-
अणिसू १५, १, ६
सम्/सम्(निसू) वीथु, वीथु- वीथु
वैथु १२, ७, २६, -निसू वीथु
वीथु १७, २५, १०, -निसू

a) वा, पावा १३, २९ पराण्ड द । b) सम्/सम् शिन्धि इति ० गोष (दु वैताथी ३०, २० टि) ।
c) = सप्तम । d) पय > सम् > वस । e) वैप १ द । f) दु सप्तम । g) गोष दृ १६५ । d ।
h) = यत्- । z) सम्/सम् इति सप्तम टि । j) वीथु इति पाठ ? वनि गोष (दु वैप २, ३४
दु वैप वीथु मात १४, १ ३, ३ इति, ७० ० क) । k) वीथु दृ २५६८ ७ द । l) वीथु वैप १ सुमया लि
४, ६, २ टि द । m) परस्पर वीथु ।

आपथी १७, १४, ११, वैथी
 १२, ८: ८, द्विथी १२, ७, २२
 ऋसम् ऋष्- ऋषे वीथी २,
 १: ७, १३ २१, १४, १५, ५,
 आथि १, ५, २: १०, पाथ
 १४, १२, वीथ ५, ७.
 समे(म्-आ/ई), समावति आथी
 २, ११, ३६, ऋसमेत
 आपथी २१, १२, ९, द्विथी १६,
 ५, ३, वेताथी ३७, १३, भा
 (समेत) आथ २, ७, ४-०, १,
 ऋसमेत आपथ १, ९, ५, पाथ,
 वीथ ८६, १६^b, अथ ७, २१^b,
 समेयात् वीथी २८, ९: २६,^a
 अथ १, २७ २०, ४, समेयाताम्
 वीथु १ १३
 समा-थ(त् >) वी- वीथु आथी
 ६ ७, ५
 समे(माइ)व- ऋता माथ २,
 १६ ५, द्विथ २, १५, २,
 -ताताम् वाथ ३, ५, वीथ १,
 १, १०, -ताति वृदे ७, १२१,
 -तेषु पाथ १५, ४
 समे(मा-इ)व माथी ६, १, १, १२,
 वाथी
 स^०मेक्ष(ण>)मा- णा वीथी ६,
 १ ६, -ताम् वीथी ३, १०
 ३, ६, १ ५
 सम्-यसु- सम्/इष् द
 ऋसम् ऋष्, समेधिपीय जैथ १,
 १२ ४१, समेधिपीयद्वि^aआथी
 ३ ६, २६ माथी १, ७, ४,
 ४६, वाथी १, ६, ७, ३८,

द्राथी ६, ४, ११, लाथी २, १२,
 १३, आपथ
 समेधव^० आपथ २, ६, २, आथ
 १, १०, १२, आथि १, १, १
 ४४, ४ ४, ५, १ ३५, माथ
 १, ४ ६, ८, १५, द्विथ १, ३,
 ११, ७, २, जैथ १, ३ १२.
 स मेघ^a- वीन वाधुथी ३, ४४^a २०
 समे(म्-आ/ई)ऋ, ऋसमेति आपथ
 १, १, ६, वीथ^a १, ६, २६, ४,
 १, ११
 स^०मैत्रावरुण- अ वाथी ६, ४, ८
 ऋसम्-ओकसु^b- कस आपथी
 २१, १, १५, द्विथी १६, ४, १३,
 -कता वीथ ३, ११, ४, -कती
 वीथ १०८, १, २, १३३, ७
 समो(मा-ऊ)ढ- समा/वह द
 समो(म-उ)दक- प्रथ १सम-द
 समो(मा-उ)त- ऋष तमा/वृष द
 समो(म्-ओ)पन्ती- सम्/उष द
 समो(म्-भो)ह- सम्/वह द
 स^०पत् > सं-पथ अथ १, ५०, २
 सं/पद् > रा पाठ- उ माथि १६,
 ६
 स^०पत् (गती), ऋसंपत्ति वाथी
 ३, १, २, १^a, आथ ३, १२, १९,
 आथ २६, २^a, माथ १, २८ २,
 पाथ १५ १^a, अथ ३ ५६
 स-पाठ- पाथ ५, १, १-१, -उम्
 आपथी १२, ११, ५, १३,
 ६, २१, ३, ४, २८, १६,
 २९, ७, १०, १७, १९, ४, मथी
 २, ३, ३, २०, ८, ११×५,

५, २, १, ३^a, ६, २, ५, २३^a, २९,
 द्विथी ८, ३, २४, ५१×५, वीथ ४,
 १, १, आथि २, ५, ६ २२,
 माथ १, ११, १२, गोथ २, ३, ७,
 ५, ५, जैथ १, १२ १७, २०-
 २०, वीथ १०९, ७, अथ १८^a,
 १, ६, -ता आथी ७, ५, २०,
 वेताथी ३२, ७^०, -तात् आथी
 ८, ४, १६^a, २, १०, ४^a, आपथी
 १२, २५, ४, १९, ९, ७, माथी
 ५, २, ४, २९, वाथी, पाथ २५
 २०, ३४, ४, ६, द्विथि ११
 ६, ११, जैथ १, २२ २४,
 द्राथ १, ४, ३, १२, वीथ ३,
 १८, वाथ १, १२-१६, ४, १७-
 २०, ३, अथ २२ २,
 ५, २४, ६^a, शुषप ८३. १,
 -तानाम् वेताथी ३१, २५^a,
 -ते कथा १६, ७७, -तेन माथी
 १, ३, १, ६, ८, ४, २९, ५, २,
 ११, २४, ६ २, ५, २०, वाथी
 १, ६, ६, १२, -तेषु वीथी २०,
 ५ २२, -तेः आपथी १७,
 १९, ५, द्विथी १२, ६, ८, -ती
 वाथी १६, २०, १५, आपथी
 १२ २७, ८, १३, ८, २
 सप्तमिक- वा ५ १, १-१
 सपात भाग- वान् वीथ ३ ३^a
 सपात-वत्- वत् वीथ १२,
 १, १४, ११, ४२, ४, ४७, १४,
 ५०, १२, ६६, २६, -वत् वीथ
 १४, २८, २३ १२×५, -वत्
 वीथ १४, २, २४, १५×५,

a) उष भाषे प्र । b) = सपा वी ७, २२, १। वै २०, ५, २ समेत इति पाम c) = ४स ।
 d) = सपा वै १, ३ ३९ प्रथ । शी ७, ९, ४, ४ समेधिपीय इति पामे । e) पामे वैष २, ३४ समेधिपीय मथा
 १६, ३२ इति प्र । f) वैष १६ । g) = सपा = ऋ १०, ४०, १०। शी १४, १, ४ समेतिरिति इति पामे ।
 h) मलो कस । i) पामे वैष १ सप्तमिकी वै १, ७, ७, २ इति प्र । j) भाप, भाप (सप्तम भाप- प्रथ) ।
 k) वा किति । l) = सप्तमिरोप । m) वान् इति ० शेष. १ ।

-याम् कौत् ७, १७, -उति
कौत् २८, ३, -यसु आधौ ८,
४, १६, १७, -वन्मू वेताधौ
१२, १४, कौत् ११, २०, १२,
६×५ अय, -वन्ति कौत् ७,
१५, १६, १, ३४, १४, ५०,
१८, अय १८^३, ६, ३

संपातयवी- नी कौत् ३२,
१६, ४१, ४, ७५, २५, -तीम्
कौत् १४, २२, १६, २५×५,
-याम् कौत् २१, ११, ३४, १७
सपात सूक्त- के आधौ ८, ४,
१४

सपाता(त अ)भिहित- यम्
अय १, ४२, ३

सपाता(त अ)भिहित- तम्
कौत् ३ ७, १३

√सपाति, सपातयति माधौ १,
३, २, १७, संपातयत् अशां २२,
२१

सपातिक- केम्, गाय २,
१२, १७

स पातम् आधौ २०, ४, ६१^०

स पातय अय १, ४२, ६×५, अशां

संपलीय^०- यम् आधौ ३, १, १०,
वैधौ ७ ९ ६, द्विधौ २ ५, ११

स √पद्^०, सपयते काधौ ९, २०, ७९,
१३ २९, १७, १५ १९ ११^०,
१८ २१, १, आधौ, सपयते

वाधुधौ ४, २९ २, छम् ३ २ ९,
सपय ते आधौ ६, १३, ९,
१४, २२, ३१, वैधौ १०, ११

५ १८, ३९ ७×५, वाधुधौ,
सपयाम् वैधौ २, १ १७,
१८, गौवि २, ५ १०^३, सपयते

कौधौ २२, ४, १३, १६, माधौ
११, १७, ११, आधौ, सपयते
१ १५, आधिय ११, १५, २०,
१ १५, आधिय

सपेदे वाप १७, ३५^०, सपयते
वैधौ २, १७ १५, १२, ७
२×५, छम्.

सपादयति आधौ १, २०, ३,
३, ३, ५, ७, २६, ६×५, वैधौ,
सपादयत माधौ १, ७, ३, ११,
सपादयन्ति आधौ १९, २०,
१५^०, २०, १७, १६, द्विधौ
१४, ४, ५, २२, ४, १७^० १०^०,
सपादयन्तु द्विधौ ३, ७, ५, ११^०,
सपादयेत् आधौ ९, ९, १७,
वैधौ १०, २६ : ९, १४, १०
८×५, वाधुधौ, सपादयेताम्
वैधौ १६, ६ : १८, सपादयेतु
वाधौ २२, ४, ३, साधौ ८, ६,
३, २, ४, २५

सपादया √कृ, सपादयाचतु
धाधौ २५, २०, १

सपादयाम् √अस्(मुचि) संपा
दयान्ताय वाप १७, ३५^०

सं पति- पावाग ३, ३, १०८,
-ति वाप २, १७, ९, -ञी
वैधौ २, ४, १४, -र्ये वैधौ
१६, ३५ १, वाप १३ १
सपति काम- मा. आधौ २,
११, १७

स पास्वमा(न >)ना- नाम् निम्
१०, ५ १४

स पद्- पाग ४, ३, १६^०, पावाग ३, ३,
१०८, -पत् आधौ १६, ३१,
११, वाधुधौ, -पत्सु आधौ

१६, ३१, १, वैधौ १८, २ :
५७, द्विधौ, -पद्. आधौ १०,
२५, ५, द्विधौ ७, २, ६३,
निम् ४, ११ २९×५, अय,
-पद्म् वाधुधौ ४, २६ १०,
निम् १, ६ २४, १०, ५ १४,
अय १, ९, ३, कृदे, -पद् वाधुधौ
९, ६, १९, २०, २९×५, वाधुधौ,
-पदि प्राग १६, १३, -पदे
आधौ १६, ३१, ११, वाधुधौ
४, ५८ ८, वैधौ, -पद्म्य
आधौ १६, ३१, १, वैधौ १८,
२ ५७, द्विधौ ११, ८, ४

सापद- पा ४, ३, १६, -दम्
कौत् १८, ६, २१, १६, अय १,
४२, १, ५, १, १, -देव अय १,
७, ६

सपद् छु (< छु) ति- ते वाधौ
१२, ६, ३५

सपत्-कर- र आधौ ३, २,
९, ६, -रे आधौ १०, ४, ११, ३

सपद् (क >) का- (> सरका
√कृ वा) पाग १, ४, ७४

सपत्-काम- म कौत् २४,
२३, ५२, ४, १५, अय २ ६×५,
-मत्य वाहां १७, २

सपत्-कोप- म आधौ २ ४, ७

सपद्-वश- केव निम् ७, १ १
२६

सपद् निदेश- याम् वाधुधौ
४, २९ १७

स पद्-> सपय कर्तु- -रैरि पा
५, ४, ५०

स-पद्यमाल- ने पावा २, १, १३

स पद् अ- पाग ६, २, २४, -अ

द) सवा टीका ३ ८, ६ ५ सम्पादय् दति पागे । ष) = होम विधेय । सपत्तो (वैवा ३ ७, ५, ११) >

यति । ष) पा ५४, ५३ पराच्छ द । द) पति दति शोध (तु सप मै २, १, ७, सूक्त ० च) ।

७) वामनाऽभिमतमिति पागम् ।

वीथी ३, २ : ८; २ : ६; माथी;
 -अम् शोधो १६, १, १५; वीथी
 ८, १४ : ११; धुम् १, २ : १०५५;
 आण; -आ माधुथी ४, १८ :
 २१; -आः शोधो ७, २७, २९;
 धुम् ३, २ : १५; निम् ८, ९ :
 ३१; -आमम् वृदे २, ७१;
 -आमु आथो १०, १७, ६; -अ
 वीथी २९, ८ : १६; कम् २, ९,
 ९; -अन वीथी १६, १४ : ९;
 १५ : ४.
 संपन्न-नुळ- > शीन- नम्
 निम् ८, ४ : ३०.
 संपन्न-चपाल- -ळः वीथी ४, ४ :
 ११; -आः वीथी १७, १२ : ३.
 संपन्न-दन्त- -नम् आण ४, ८,
 १०.
 सं-मादन्- (> सांपादकिक- पा.)
 पाण ५, १, १०१.
 सं-मादयत्- -यत् वृदे १, ७६.
 सं-मादयिष्यत्- -य्यन्तः आथो ७,
 ११, २१.
 सं-मादिळ, ता- -नम् हिथी १७, २,
 ४११; -आः शोधो ६, २, १३; धुम्
 २, २२२; २२५.
 सं-मादिद्- -दिधि पा ५, १, १९.
 सं-मात् (दि-अ)ई-द्विता (त-अ)
 लम् (इ-अ)ई- -याः पा ६, २,
 १५५.
 सं-मात् आपथी २१, १६, १९; २५,
 १; माथी.
 सं-मात्- -आनि वीथी २४, २४ : १.
 सं-मात्-पाद्-नाग- -नेल शोधो
 ७, २७, २९.

संपर्- > शीय-वा.) पाण ४, २, १०.
 संपराय- संपे (रा/इ) द्र.
 सं-परि/गृह् > संपरि-गृह् वीथी
 १, १४ : २०५५; वीथ.
 सं-परि/च्छद् > संपरि-च्छद् वीथी
 १८, १ : ८३.
 सं-परि/दिप्, संपरिसिष्यते
 वापुथी ३, १६ : १.
 सं-परि/शि > संपरि-शित्प हिण १,
 १०, १.
 सं-परि/स्तु (आच्छादने) > शीय-
 वापुथी ८, १७, १२५५; वीथी.
 सं-परे (रा/इ) > संपरा (रा-अ)य-
 पाण ५, १, १०१; -ये तु १०,
 १; आणिय ३, २, १ : ४; ५ : ४;
 वाय १७, ११.
 सं-पराय- -ये आणिय २, ५,
 २ : ३०; वीथ ३, ७, २०; माण
 २, १६ : ६; हिण २, १४, ३;
 १५, २; आणय; -येण आणय २,
 १४, २; हिण २, ५, १६८
 सांपरायिक- पा ५, १, १०१;
 -कम् सं २५१.
 संपरे (रा-अ)य- -तः धुम् ३, २ : ५; ६;
 संपरो सुध ६५.
 सं-परि/न्- सं/ष्ट् द.
 सं-पर्यो (रि/आ)प् > संपर्यो (रि-आ)
 य वीथ १०, ४.
 सं-पयय सं/ष्ट् द.
 सं/पय, सम्-पययवः वैताथी
 १०, १७; संपययन्ति वीथि ३,
 १, ३; संपययन्ति शोधो १०, १,
 ७; शोधो ३, ११, ४; संपयय सु
 २९, २; संपययन्ति आपथी ६,

१७, १; वीथी ३, ८ : १८; माथी;
 सं-पयय-पययव- आपथी १०,
 २३, ६; वीथी ६, १३ : १२; माथी
 १०, १५, १५; वीथी १२, १० : ५;
 हिथी ७, २, २१; संपययत्
 काथीयं शोधः ३; ४; निम् ३, ९ :
 ७, ४, १३ : १५; अण ७०, ४, ५.
 सं-पयय- -ययम् अण ४, १, २४.
 सं-पययमान- -नः अण १३, ३, १२.
 सं/पा (पाने), सं-पययते वा १२,
 २९; माथि ४८ : संपययत् कम्
 १, १०, ११; संपयययाम् शोध
 १, १७, ११.
 सं-पा- -या धुम् ३, १० : १२; निम्
 १, ५ : ५.
 सं-पाठ- सं/पद् द.
 सं-पात- -यम् सं/पाति सं/पा
 (गती) द्र.
 सं-पाति- पाठो २, १, १६६.
 सं-पातिक- सं/पत् (गती) द्र.
 सं-पातीभिः वीथ ४, १, ९.
 सं-पात्य सं/पत् (गती) द्र.
 सं-पाय- सं/ष्ट् द.
 सं-पायन- सं/ष्ट् द.
 सं-पयिष्, सम्-पयिष्ति वापुथी
 ४, १०६ : ३.
 सं-पिष्, सं-पिष्ति या ११, ४१;
 सं-पिष्ति या ६, १; सं-पिष्ति या
 ६, ११.
 सम्-पिष्ति वा ६, ४१.
 सं-पिष्- -आण या ११, ४०१.
 सं-पिष्ण आपथी १२, २४, ५; १४,
 ३३, १०५५ कैथी.
 सं-पे- (> संपेदि- पा.) पाण

a) वस. । b) तु. पाणम्. । c) = मुनि-विशेष- इति पाणम्. । d) = संपाम-, प-लोका-

e) स्वायं अण् प्र. । f) वै इति पाठः इति. शोधः (तु. हिण २, १५, २) । g) पाठो. वैप १ सुम्-पययत्
 टि. द. । h) पामे. तु १८५९ k द. । i) = साम-विशेष-, छन्दो-विशेष-. न्यु. ! । <सं/पा/पाने/ इति M. ।
 j) सं-पययिष्ति > सम्-पययिष्ति इति C. शोधः ।

५, १, १०१
 स-नेपज- > ण श (क) > का-
 के वैश्री ११९०६
 सं √पुप् > ण स पुटि- ष्यै वाध्री
 १२ ५, ५, लाध्री ५, ४, १९,
 वैताध्री ३०, १९
 सम् पु (क) > ष्या- ष्या आपय
 १८, ११
 स √पू, संपययतात् वीध्री ७, ७ ३०,
 १०; २०, ८, २; १०४४
 सपाययस्व माध्री २, ३, ५, १९१,
 सपयय वीध्री ११, ३ ४, १७,
 ३३ ११
 स पाव- नम् काध्री २५, १३,
 १६, माध्री २ ४, ४, १६, ५, १,
 २१
 स पू- नम् काध्री २९ २१,
 २४, वीध्री २५, १८ ७
 स पू माध्री १, २, ३ २४xx, आण
 स √पूज, सपूजयेत् अप ५, ५, ४xx
 स पूज वैश्री १ ४ १४, आसिष्ट
 स पूज- ण्या ण १९, ५, ४
 स √पृपू सपरमति वीध्री १४, १,
 २३, ण सपारमन्तु आपध्री ६,
 ८, ४, वीध्री ३ ५ १५ १६,
 माध्री, ण सपारमत् वैश्री ६, ८,
 १०, काध्री १३ १, ११, वीध्री
 सपूरमति माध्री ६, १, ५, ६, ८,
 ११, ३, ३, १०, हिध्री २४, ६,
 १०, आसिष्ट, सपूरयेत् वैश्री १८,
 १६ ७५, आपय २, १६, ९
 १७, वीध्री सपूरयेत् वाध्री

९ २, ६,
 स पारण- णण^० आसिष्ट ३, ७,
 १ १८, वीपि १, १७; १७
 सपारणी- णी वाध्री ४, ३६
 ६
 स पूण- > णा(ण-अ)र्ध-त्व-
 -नवाय मोह ५, ३, २०,
 स-पूरयिता आसिष्ट ३, ४, २, ३
 स पूर्ण, ण- णम् वीध्री १, १ ५,
 निम् २, ३ ३२, ३४, ९, ११;
 ३६, आसिष्ट, -ण- आपध्री
 २२, ११, २२, हिध्री १७, ५, १४,
 निम् ७, ७ ९, -ण- हिध्री
 १, १ ७७, आसिष्ट २, ५, १०
 ३७, -ण- वैश्री १, १ २०,
 निम् १, ७ ३४, कु ६, १, -ण-
 वाध्री १, १, २, १, -ण- निम् ९,
 ११ ३७
 सपूरण(ण-अ)श(र)ता- रा
 या ७, १३
 स-पूर्य आपध्री १९, ११, ६, वाध्री
 सं √पृच्, ण सपिपुमिध्री वीध्री १८, १
 ६, १३, २०, २७
 सम् पृचस्व माध्री १, २६,
 ९, सपृचष्वम् माध्री १, १४,
 १, ण सपृचष्वीय आपध्री ६, ८,
 ४, हिध्री ३, ७, ५१
 सपृणकि वीध्री २४ २६ ११, ण,
 सम् पृष्कात् हिध्री १३ २,
 ३०, सपृणकु, सम् पृणकु
 या १०, ११, ण सम् पृष्क
 आपध्री १८, ७, १, वीध्री ११,

११ १, वाध्री
 ण सपृक्षा, वाध्री २, ३, १८,
 आपध्री ३ २०, १, माध्री
 सम् पृच्यते ऋषा ४, ८३, ण,
 ण सम् पृच्यन्ताम् वाध्री ८, ९,
 २, माध्री १, २, ३, २३, वाध्री,
 ण सम् (पृच्यन्ताम्) वाध्री २, ८,
 १०, ८, ९, २, काध्री २ ५,
 १३, वाध्री १, ३, १, १४, वैश्री
 ४, १ १३, हिध्री १, ६, २८,
 शुष १, ४२२, ण सम् पृच्यन्त
 आपध्री १, २५, १२, वीध्री १,
 १०; ११, १२xx, वाध्री,
 ण सपृच्यन्तम् वाध्री ४, २, ३२,
 आपध्री १, १३, १०, वीध्री,
 ण सम् पृच्यन्तम् वीध्री १, ९
 ९, माध्री १, २५, ६, माध्री,
 वैश्री ४, ९ १६, समपृच्यन्त
 या ११, १६
 म पकिन्- वा ३, १४२
 ण सपृच्- ण्य काध्री १९, ३,
 ३१, आपध्री १, ४, १, ७, १६,
 ४xx, वीध्री १ २ १७,
 ४, ६ ३२xx, माध्री १, ४,
 ३, माध्री १, १, ३५, वाध्री
 १, ३, १, १०xx, वैश्री ३, ४
 १३xx, हिध्री १, २, ४६xx,
 -पृचो^० काध्री १४, २, ७, शुष १,
 ५५७
 ण सपृच्यन्त- ण आपध्री २ २२,
 १३, -नी वध्री ६, ४, ३,
 आपध्री ६ २६, १, ११ १९, ६,

a) विप (लुपयुधान) घाना । सम् (= सह) + (√पुप । = √३६ > गुप्) आवरणे >) *पृच- >
 वय वनि (व [तावर्णे] हरदत्त, old, वैल सुदर्शन [तावर्णांजने] सपुष्टा- इति, MW पाठ इति क्व
 सपुष्टा- इति शेष) । b) पामे वैप १ सुवह शौ ६ ४८, १ ३ टि इ । c) पामे वैप १ सतातण मा ३५,
 १३ टि इ । d) वस । e) पामे वैप १, २०८९ C इ । f) *पृच्य^० इति पाठ इ वनि शेष ।
 g) वैप १ इ । h) पामे वैप १ सपुष्टा मा ३७, ११ टि इ । i) = सपा मा ९ ४ । या १०, १, ६ सपुच
 इति पामे । j) सपा, शौ ६, १२४, १ गौ इति, दिव १ १६, ६ गुस इति च पामे ।

बौधो छ, ६: १२x; माथो.

सं-वृष्ण > सं-वृष्ण- णा: शोभो १, १५, १६; भाष्यो २४, १२, १६; बौधो ३, ३०: १४^६.

सं-वृष् सं-वृ द.
सं-पेय- , पेयण- सं-विपू द.
सं-प्र-वृष्ण > सं-प्र-काशित- णम् पाणि ३१.

सं-प्र-वृष्ण (<कीर्ति-) > सं-प्र-कीर्तित, ता- ण्तः शंष ४६२; -तम् श्रप ३०, १, १३; ७१, १७, २; श्रप ३, ४३; -ता: श्रप १, ४, ८; दंवि १, ८; १०.

सं-प्र-वृष्ण (विष्णे), सं-प्र-कित्ति बौधो १६, २५: १४; बौधे २, ११, ४२; वीष्ण २, १, ११; सं-प्र-कित्ति बौधो ८, २०: १०; १०, ४९: ३x; वाधुगौ.
सं-प्र-कीर्ष बौधो २, १३: ३x; वाधुगौ.

सं-प्र-वृष्ण, सं-प्र-कल्पयते हिम् ५, ६: ४.
सं-प्र-वृष्ण > सं-प्र-विलक्षण भाष्यो १५, २, १४.

सं-प्र-वृष्ण > सं-प्र-शाल्य(न) > शी^०-नी वीष्ण ३, १, ५; २, ८६.

सं-प्र-शाल्य बौधो २५, १४: ११; १५: १x; भा. ३.

सं-प्र-वृष्ण > श्रुष्य बौधो १३, ३: ७.
सं-प्र-वृष्ण > सं-प्र-शाल्य^० भाष्यो ६, २८, ८; भाथो ६, ६, ९.

सं-प्र-वृष्ण > श्रुष्य श्रप २, ४.
सं-प्र-वृष्ण, सं-प्र-कृतित बौधो ८, १०: १३; भाथो १, ७, २, ११x;

सं-प्र-कृतित बौधो १२, १०: १७.

सं-प्र-वृष्ण बौधो छ, ६: ५९; वैशो.
सं-प्र-वृष्ण, सं-प्र-गायन्ति लाथो ७, ८, ११; सं-प्र-गायन्ताम् निम् ८, ७: २४.

सं-प्र-वृष्ण > सं-प्र-श- (> सं-प्र-शिन-क- पा.) पाय ५, १, ६४.

सं-प्र-वृष्ण, सं-प्र-कृतित द्विपि १७: १४; सं-प्र-कृतित बौधो १०, ३६: १६; ३८: २४x; सं-प्र-कृतित बौधो २०, २१: ३१.

सं-प्र-कृतित- णा: बौधो २१, ९: १३; -शम् बौधो १०, ३६: १६; ३८: २४x; -शा: बौधो २, ७: १०; १३: २x; -शेषु बौधो ६, ३०: १७; ८, ५: ५x; -शो बौधो ५, ५: ८.

सं-प्र-कृतित भाष्यो ११, १६, १५x; बौधो.

सं-प्र-वृष्ण > सं-प्र-कृतित बौधो १४, २८: ३.

सं-प्र-वृष्ण, सं-प्र-जायते अप २२, ५, १; शैति ९६.

सं-प्र-वृष्ण (त) ण- णाम् गोष्ठ ३, ६, ४; ५; दाय ३, १, ४५.

सं-प्र-वृष्ण (<नी) ष् > सं-प्र-गीक्ष्य भाष्ये ३, २, ५: १०^०.

सं-प्र-वृष्ण > सं-प्र-जायन्- णम् विप ४३, ११.

सं-प्र-वृष्ण काथो २, ३, ३; ६, १, १; ८, ६, २०; काठथो; पा, पाय २, १, १७; पाय ५, ४, ३४; ३८^०.
१ सं-प्र-वृष्ण- पा ५, ४, ३८.
२ सं-प्र-वृष्ण (त) ण- णा: साथी

छ, ३, १८.
सं-प्र-वृष्ण- पा ५, ४, ३४; -के पा छ, ३, ९.
सं-प्र-वृष्ण (ति-अ) ष- षे बौध ७, २१; या ७, ३१.

सं-प्र-वृष्ण, सं-प्र-विपद्यते भाष्यो ४, ४.

सं-प्र-वृष्णयते द्विपि १, ७, ६६;
सं-प्र-वृष्णयथ बौध २, १, ४९;
सं-प्र-वृष्णयते भाष्य १, २९, १^०.
सं-प्र-वृष्ण- णो मीष्ण १०, १, २७.

सं-प्र-वृष्ण (ति-अ) > सं-प्र-वृष्ण (ति-ई) यमान- > णा (न-अ) ष- षोण- षे पावा २, १, ३५.

सं-प्र-वृष्ण (ति-अ) ष- णा: या १३, १; पावा १, १, ६८; २, ३१x; -शम् पावा २, १, ३५.

सं-प्र-वृष्ण (ति-अ) ष- णा: पावा छ, १, ४३.

सं-प्र-वृष्ण (ति-अ) षे (व-ई) > सं-प्र-वृष्ण (व-ई) ण- णामि श्रुष् ३, २: २५.

सं-प्र-वृष्ण (ति-आ) ष > सं-प्र-वृष्ण- णाम् बौधो २२, ५: २५.

सं-प्र-वृष्ण, सं-प्र-वृष्ण: वा १, २०.
सं-प्र-वृष्ण, सं-प्र-वृष्णकार वा १, ५.

सं-प्र-वृष्ण- णम् कथ १, २, ९.
सं-प्र-वृष्ण- पाय ५, ४, ३४;

- णम् काष्ठ १, ६७-६९, ३; गोव १०, ४; पा १, ४, ३२; ४४; पावा १, ४, १; - षे बौधो २३, १४: १; पा २, ३, १३; ३, ४, ७३.

a) ण दति पाठः इ यनि. शोषः (वृ. c.) । b) = शक्ति-विरोध- । वप. श्रवितरयो प्र. । c) पाठे. दृ २४५६ क द. । d) पावा १, ३, २९ परावृष्टः द. । e) श्रप. भाष्यो ७, २२, ९ प्रगीक्ष्य इति पाठे. । f) वैप १ द. । g) वृ. पाठम्. । h) विप. (दासी-) । तत्र मवीकः अणु प्र. । i) परस्परं पाठे. । j) भाष्य, वाप. (पारिभाषिक-संज्ञा- (पा. ५)) ।

सामवाचिक- पा ५,४, ३४
 सप्र दाय वीथी २, १३ : १५×५,
 जैथी १५ ६ काण ६५ २, वीथ
 १सप्र-दाय^१- व कौसू १, ७
 सामवाचिक^२- क्व वीथ २ २,
 ४४, गौसू १, २, ८
 २सप्रदा(व>)पा^३- धाम् अय ३
 ६
 सा (<स)प्र-दायम् द्विथी ९, ७,
 २५
 स प्र√दिश, सप्रदिसान्ति वीथी १८,
 २८ २०, भाण १, ९ १२
 सं-प्र√दीप्, सप्रदीप्यते वाप ६१, १३
 सप्र दीप्त- से काथी ४, १५, १,
 वीथ ५, ३, २८
 सं-प्र√दुप्> सप्र द्रोप- पा अय
 ७०^४, ११, १९
 स प्र√द्वष्ट, सप्रद्वष्टन्ते अय ६१, १,
 १०, ७०^५, १, २, सप्रद्वष्टेत् अय
 ५०, ६, १
 स प्र√धाव् (उद्दी)>सप्र धाव्य
 वीथी ६ २ ८, ३ ७
 १सप्रमयता अय ७०^६, ११, २१
 स प्र√मुञ्, सप्रमुञ्चते वीथी २८,
 ११ १३
 स प्र√मुच्, ङ्च्, संप्रमुञ्चति
 काथी १५ २७, १
 सप्रमुञ्चयेदि काथी १४, ७, १
 सय मुच्य काण ३१ २
 स-प्र√मृज्> सप्र मार्ग- नौ अय
 १, ८, १४^६
 स प्र√मृष्टे> सप्र-मृष्टाय वीथी ६,
 १ ११
 स प्र√यच्छ, सप्रयच्छति वीथी

६, ३१ ११, ११, ११, १८
 १×५, वैथी, सप्रयच्छेते कौसू
 ५४, १३, सप्रयच्छन्ति आपथी
 १८, १८, १५, वाधुथी ४, १०.
 ७, द्विथी, संप्रयच्छतु कौसू
 २, ६, ७, शाण २ १०, ६,
 सप्रयच्छेत् वीथी २२, १९ ८,
 वाधुथी ४, ८ ६, वाय १४,
 ८७^७, वीथ १, ५, १००, संप्रय
 च्छेत् वीथी २२ १९ ९
 सप्र-यच्छत्- ङ्च्छत् वाप २,
 १०, विष ३०, ४७, विष १, १,
 १८, वा २, ४, -वृष स आमिण
 १, २, २ ६, द्विथ २, १८, ९
 संप्र-यती- लये (प्र√इ) द्र
 स प्र√या, सप्रयान्ति काण ५४, ७
 सप्र यात- न्त्स्य आग्वो ६, १,
 ६, -येपु काथी २, १६, १
 स प्र√यु सप्रयौति वीथी २, १६
 १२, ४, २ २२×५, भाथी,
 सप्रयुचन्ति वीथी १५, १९ ३
 सप्र-युत्य भाथी ८, १९, ११, वैथी
 स प्र√युज्, सप्रयुज्यते या १, ४,
 ५ १०, ११, सप्रयुज्येते वा १
 ५५, १६, सप्रयुज्येत या १, १२
 सप्रयोजयत् वीथ १, ५, ७९
 सप्र युक्त- क्त निस् ५ ६ ७, ऋषा
 १, ५२, -का निस् ९ ६ १७
 सप्र योग- पाय ५, १, ६४, -ग
 वाण १, २३, २२, आपय १,
 २४, २०, २८, १३×५, वीथ
 -नौ वीथ १, १, ४, ११, १, २४
 सांप्रयोगिक- पा ५ १, ६४
 स प्र√ली सप्रलीयित वीथ १, १, १५

स प्र√लुप्, ङ्प्, सप्रलुम्पति वाधुथी
 ४, ६६ ३
 सप्र लुप्य वीथी १, २१ २७×५
 सं प्र√वच्, सप्रवक्ष्यामि अय २२,
 १, १, २६, १, १×५, वीथ ४,
 ५, १, द्विथ १, १
 सं प्र√वद्, सप्रवदन्ति आपथी २१,
 १९, ४, वीथी
 सप्रवाहयत वीथी १६, २१ ७
 सप्र वाद- -द्, -दम् वृदे ३, १५५
 सप्रो(प्र-उ)दि(त>)ता- -ता
 वीथी ११, ८ १३, १२, १३ १२
 सं-प्र√वि(<व्य)ष्ट, सप्रविध्यति
 वैथी १०, १७ १२, ११, ६ ५,
 द्विथी ४, ४, ६५, सप्रविध्यन्ति
 द्विथी ९, ५, ३९
 स प्र√विश> णिष्ट- -ष्टेपु आण
 ४, ६, ७, -ष्टै अय ७०^८, १५, ४
 सप्र वेदान- नम् अय ६८, ५, १२
 स प्र√वृत्>सप्र-वर्तित- तम् अय
 ७१, १७, २
 स प्र√वे, सप्रवयेत् काथी १६, ७,
 १५, १४, ४
 संस्रवेदाम्^१ आमिण ३ ६, ३ २६
 स प्र√वेष्ट > ष्ठेक्ष्य काठथी ५४
 स प्र√सद् > सप्र-साद-> ण-
 करण- गम् अय ३०३
 संप्र-सर्पण- सप्र√सर्प द्र
 संप्र-सारण- प्रण सप्र√स्र द्र
 स प्र√सृ, सप्रसारयते आपथी २०,
 १८, २, द्विथी १४, ४, ७, सप्र
 सारयति आपथी १६ १८, ४,
 वैथी १८, १५ १३, द्विथी ११,
 ६, २६, सप्रसारयति द्विथी ५

a) = ऋषिपरिवारगतोपदेश [तु घट] । उप भाषे घञ् प्र । b) तदजागतोपत् ठक् प्र उत्सं (पा ४३, ७५) । c) = [आर्षी] रोहिता- । उप कर्षति घञ् प्र । d) आर्षे इति ITA । e) त(उम्भ), गर्तं मिथेन (मिषाय इत्येतदीयं द्विचि) इति द्वि-पदा सोष । सभा वीथि [१, १२ २] प्रविशेदाम् इत्यत्र मैत्र ११ १५ ३] गर्तं दाम् हत्यत्र वापुक् एव शेष ६ । सय द्विथि ९ १२ सार्वां पलाशमूले वा इति पाणि ।

४, ११; संप्रसारणवाचै आपथौ
२०, १८, १९; वीथौ।
संप्रसारण- -गाम् पा १, १, ४५;
३, ३, ७२, ४४; पावा ३, २, १७८;
३, १०, ४, ४४; -णस्य पा ६, १,
१३९; -णत् पावा ६, १,
१०८; -णे पा ६, १, ३७;
पावा ६, १, १३; ३३, ४४; -णेत
पावा ६, ४, १३२।
संप्रसारण^१ पावा ६, १, ६५; ८५
संप्रसारण- -गम् पावा ६, ४,
२२।
संप्रसारण-दीर्घत्व- -त्वम् पावा
६, ३, १३८; -त्वे पावा ६, ४, १।
संप्रसारणदीर्घत्व^२ पावा ६, १,
१०।
संप्रसारण-पूर्व-त्व- -त्वम् पावा
१, ४, २।
संप्रसारण-प्रतिषेध- -घः पावा
३, ३, १०।
संप्रसारण-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ३,
२, ३।
संप्रसारण-मलोप-प्रस्थादि-
न्दीनाम् पावा ६, ४, २२।
संप्रसारण संज्ञा- -ज्ञावाग् पावा
१, १, ४५।
संप्रसारण(ण-ञ)थं- -थम् पावा
६, १, १७।
संप्रसारण(ण-आ)थ- -थलीय-
स्त्व- -स्त्वात् पावा ६, १, १७।
संप्र-सापं वीथौ २०, १ : ३४; ३६;
३७; माथौ ४, २, ४।
सं-प्र√सुम्, संप्रसर्पन्ति शोधौ १७,
७, ११; आपथौ १२, १८, १५,

२१, १०, १; वैथी; संप्रसर्पेत्
वीथौ २१, १९ : ८।
संप्र-सर्पण- -गस्य वीथौ १७, ८ :
३६; -णे शोधौ १७, ७, १२।
संप्र-सर्पण- -यन्तु आपथौ १७, १०,
६।
संप्र-सर्पण- -व्यात् वीथौ ७, १२ :
१; ८, १ : २; ९ : २, ४, ६; वैथी।
संप्र-सर्पण वैथी १६ : १; १८ : १२।
सं-प्र√सु, संप्रसार्पयन्ति वीथौ १, १९;
३६; माथौ ७, २२, ६।
संप्र-सार्पण वीथौ ४, १० : १५; ५,
४ : १०, ४, ४।
सं-प्र√हसु > संप्र-हास्य वाच १७,
६१।
सं-प्र√हा (त्यगि) > संप्र-हा(ण) >
पा- वा, पाण ४, १, ४७।
सं-प्र√हृ, संप्र^३हारयन्तु वैथ ३, ५ :
२०।
संप्र-हारि- पाठ ४, १२५।
सं प्रा(प्र√वा)प्, संप्राप्नुवन्ति वाच
२५, ७।
संप्राप्यते वाच २५, ८।
संप्रा(प्र-वा)प- -प्यः वाच ५०, ६,
४; -से वीथौ २, १०, ४।
संप्राप्त-त्व- -त्वात् मीम् ९, ३,
३८।
संप्रा(प्र-वा)प- -प्यात् सु १८, १।
संप्राप्येयम् निम् १०, ३ : ४४।
संप्राप- -प्राणाम् विम् ८, १ : २५।
सं-प्रा(प्र√अ)र्ध् > संप्रा(प्र-अ)र्ध्वं
मम् ५, २८।
सं-प्रिय, या^४ - पाण ४, २, ५३; -पैयः
आपथौ ५, १२, ११; वीथौ २,

१६ : १४; ४२; १७ : ३; ४०; १०, २० : ८; १९, २ :
२५; वाथौ १, ४, २, ६; दिथी
३, ४, १२; -या वाथौ १, ४,
२, ६; -पैयाः वीथौ २, १६ :
१४; १०, २० : ८; १९, २ :
२५; वाथौ १, ४, २, ६; -पैथी
आपथं १, ३, १४; आप्थ १, ७, ६;
पाठ १, ६, ३।
संप्रियक- पा ४, २, ५३।
सं√प्री > सं-प्रीति- -त्या विथ ६७
३८।
संप्रे(प्र√इ) > सं-प्रे-प(र) > ती^५-
-थीः कौए ४०, १; वाच
१०, १, ११; वाचं २ : २७।
संप्रे(प्र√इ)ध् > संप्रे(प्र-इ)धा- -धा
वीथ २, ४, १९।
संप्रे(प्र-इ)ध्व वृथे ४, १४; ५, ७४।
संप्रे(प्र-इ)ध्वमान- -घः वैथ १,
२१ : ८।
संप्रे(प्र√इ)प् (गतौ), संप्रेष्यति गोथौ
१६, १, २५; आपथौ; संप्रेष्यतः
वीथौ ८, १ : ५।
संप्रे(प्र-इ)षित- -तः आपथौ १, ९,
१, ४, ४; शोधौ, -गाम् वीथौ १६,
५ : १; -ते दिथी २१, २, २७;
६२, ६३; ६५।
संप्रे(प्र-इ)ष्य काथौ २१, ३, ३३;
वीथौ।
संप्रे(प्र-इ)ष्य^६ - -व्याः माथौ ८, ६,
१०।
संप्रे(प्र-इ)ष्यत् - -प्यत् माथौ १,
७, ४, २२।
संप्रे(प्र-इ)ष्य^७ - -यः आपथौ २, १९,

a) पारिभाषिक-वैधा- । b) संप्रदायणा इति च (उ. पागम.) । c) मप्र. आप्थ ५, १३
प्र^३हारयेत् इति, शिथ १, २२, १ प्र^३हारयन्ति इति च धमे । d) वैथ १ द. । e) ध्यप. (उ. पागम.) ।
f) = सपा. मे १, ६, १ तैत्रा १, १, ७, १ । तैत्रा ४, १, ७, १ मुंप्रियम् इति पाठे । g) = संप्रे- । h) उप. भावे
धम् प्र. ।

१८, ४, ७, २, ५, ५, १३,
 आपथी, -यम् आपथी २, ३,
 १२, ११ १५, ४, वीथी,
 -यस्य द्विथी ४, २, ३०, ५, १,
 १८, २, २५×५, -पा शीथी १,
 १, ३६, काथी १, ३, ११,
 आपथी १२, २१, १, वाथी,
 -पात् शीथी २, १६, २,
 आपथी १०, २१, ५, वीथी,
 -पात् काथी ३१, वाथी
 १, ७, २, १५, -पे काथी
 ३६, वीथी २०, १२ १८,
 जैथीका ४५, मीत् १, २,
 ४५ -येन वैथी १८, ३ १,
 द्विथी ४ २, ३०, ५ १, १८×५,
 -पेत् शीथी ३, १६, १५, -पै
 वाथी १, १, १, ७, -पौ आपथी
 २, ११, ६, २१, ६×५, काथीस
 सप्रैव-काल-ले आपथी ८, १०,
 ४, १४, १, १७, १६, ६, वैथी १९,
 १ १८
 सप्रैव प्रमृति- -ति वीथी २५,
 २६ ४.
 सप्रैव पावना- स्वयो वाथी १,
 १, १, ४६.
 सप्रैव वत् आथी ६, १४, १३,
 आपथी
 सप्रैव-वन्दम् वाथी १, १
 सप्रैव(प आ)दि- दि माथी ७,
 २१, ६, -दि आथी १३, ४,
 १४, १२, २, -वी आपथी १३

४, ८, ११, ६
 सप्रैव(प-अ)नुवचन- -नेत्
 दाथी १, १, १, ८१
 सप्रैव(प-अ)न्त- -न्तम् आपथी
 ७, ८, ५, माथी ७, ७, १, ८, २, ६
 सप्रैव(प अ)म्वय- -य. आथी
 ९ ७, २१
 सप्रैव(प अ)वचन- नात् वाथी
 २, ६, २९
 स-प्रो(प्र/उ)क्ष्, सप्रोक्षति वैताथी
 ४, २, कौत्, सप्रोक्षन्ते कौत् ३२,
 २८, ६१, ५, सप्रोक्षेत् अय १८,
 १, ३
 सप्रो(प्र उ)क्षण- -यम् काथ ७२,
 २, ४, ५
 सप्रोक्षण- -गीम्वान् कौत्
 ४० १, ८०, ४२, ८३, १७
 सप्रोक्षणा(ण-आ)त्(दि-अ)र्ष-
 -यम् वाज ६, १०
 सप्रो(प्र-उ)क्ष्य प्राथी १, २, १७, ७,
 २, ११, वाथी
 सप्रो(प्र-उ)दित- स प्र√वद् द
 स प्रो(प्र-उद् >)न् √क्षे (=√क्षै)
 >सप्रोन्-न्वाय^० माथी ११, २,
 २२^०
 स प्रो(प्र√क)र्ण, सप्रोर्णोति वीथी
 १५, २१ ३३, सप्रोर्णुवते शीथी
 १६, ३, ३४, १३, ८, सप्रोर्णुवन्ति
 वैताथी ३६, २१, ऽसप्रोर्णुन्व
 आथिथ ३, ५, ७. २४, वीथि १,
 १ १, द्विथि ६ १२, सप्रोर्णु-

वापात् वैताथी ३६, ३०^१,
 सप्रोर्णायाम् वीथी १५, २१
 ३४^१.
 सं√प्लु, सप्लवते निव् ९, १० ७,
 ११ २
 सप्लवयते अय ४२, २, १
 स प्लव- -न्स्व^१ वीथी १५, २०
 ७, -वानाम्^२ वाथी ३, ७८ ३
 स-प्लो (<प्र-उद् >)न् √मत्ता >
 सप्लोन्-न्वाय^० आपथी ८,
 १६, ६^०, १३, १७, ९^१, द्विथी
 ९ ४, ५५^२, २४, १, १५^०
 स फल ला^३- पाग ४, १, ४, २, १०
 पावा ४, १, ६४
 सफलीय- पा ४, २ ९०
 √सम् पापा चुरा पर सवन्धने
 सस्यक- (> साम्यक- पा) पाग
 ४, १, १०^४
 सं√वध्, ऽध्, सवध्नति माथी २, २,
 २, ३६, ३, ३१, ६, १, ५, ३५,
 वाथी, सवध्नति वीथी ६, ९ २,
 १०, १७ २, वैथी १८, ११ २
 सवधयते आपथ २, ११ १४,
 द्विथ २, ४, २१
 स वध्, दा- -द्धम् काथी १, ३, ३,
 -द्वा अय ५८^१, ३, २
 सवद् दुग्म-प्रस(व>)वा^०-
 -वा अय ७०^२, १०, २.
 स-वध् द्विथि ८ २
 स व-व- -व्वा आथी ५, ६, २५,
 वाथी ३, १० १ ४, शीथी ९,

०) यत् । १) = ऋन् । २) = सनेच्छय । ३) वैत् ४) प्रय् = २स्व-इति^१ । सप्रोत्रा^० इति
 पाठ ? यति शोध (तु सप्रोत्राय, सप्रोत्राय, सप्रोत्राय इति मूले । तु सत्त्वं टि ।) । ०) परस्पर पाठे ।
 १) पाठे वैत् १, २२५५ ट् ट । २) = भवुवाक-विशेष (तै ७, ५, ११) । ३) परस्पर पाठे । ४) सप्रोत्रा^०
 इति पाठ ? यति शोध (तु सद्दत्त, ०, सा । तै ४ ११५७) । ५) सप्र वैथी १६, २२ १ प्रमहाय इति
 पाठे । ६) सप्लोम्वान् इति पाठ ? यति शोध (तु द् टि) । ७) सप्लोम्वाय इति पाठ ? यति शोध
 (तु द् टि) । ८) विर, नात् । ९) म्वय । १०) इयवक- इति पाठे (तु पायम्) । ११) यत्.
 >अय स्य. <प्र/√ (वाणिप्रयवे) ।

६,२१; निम् ४,८:३५; आपध;
 -न्धम् सुध ५७; -न्धस्थ मौर्
 ३,२,४; ४, १०; -न्धा: नूदे ३,
 ६८; -न्धाए काधो १, ५, ११;
 मौर्ध; -न्धात् वीर् २, ११, ६;
 आपध २, ५, १८; वीध २, ७१;
 हिध २, १, १०; -न्धेन या ११,
 २; -न्धेषु आपध १, १०, ३; हिध
 २, ३, ३२; -न्धै: विध ३५, ५.
 संवन्ध-पथी-निर्देश- -न्ध: पावा
 ६, ४, १.
 संवन्धा(न्ध-अ)दर्शन- -नाध
 मौर्ध ६, ७, ३५.
 संवन्धा(न्ध-अ)र्थ- -र्धा: धपं १:
 ३१.
 संवन्धिन्- > णिध-यन्धव-
 -वानाम् विध ६४, ३३.
 संवन्धि-शब्द- -न्धै: पावा
 १, १, १; ७१.
 सम्बन्धिनाशब्द-प्रारण-
 -वानाम् पावा ४, १, १६.
 संवन्धन- -नात् या ४, २१.
 सम्बर (> √सम्बरं पा.) पाठमो २,
 ३, ७४; पाग ३, १, २७.
 सम्बन्ध^१ (> साम्बन्ध- पा.) पाग
 ४, १, १०५.
 सं√याच् (यधा.) संवाघते वीधौ ८,
 १६: ११; णिसंवाघेयाम्^२ वीधि
 १, १५: ८१; वैघ ७, १: ६.
 णिसंवाघिष्ट^३ ऋभ १८, २; दंवि
 १, ७; णिसंवाघिष्टाम्^४ आमिण
 ३, ८, ३: ११; वीधि १, १५:
 ८१; वैघ ७, १: ६.
 संवाघ^५ - -धम्^६ माथी १४, १, १८;
 लाथी ५, ६, २; -धे आपध २३,
 ३; -धेषु तु १२, ६; आमिण २,

४, ६: ४११; वीघ २, २, १०१.
 संवाघ-वन्धौ^७ - -न्धव: अथा ३,
 २, १२१.
 संवाघ्य काथी १७, १०, १३; १६;
 १८, २४, ३.
 संविध- -यम् दंवि २, ३१.
 सम्बु^८ (> साम्बन्धाव [न >]
 नो- पा.) पाग ४, १, १८.
 सं√बुध्, संबोधयन्ति वीधौ ७, १:
 १; संबोधयेत् या १४, ३२.
 संबुद्धि- -दि: पा २, ३, ४१; -द्धै:
 पा ६, १, ६८; -द्धौ काथी १,
 ८, १६; पा १, १, १६xx; पावा.
 संबुद्धि^९ पावा ७, १, १०.
 संबुद्धि- -दपो: पा, पावा ८,
 २, ८.
 संबुद्धि-गुण- -ग: पावा ६, १,
 १०.
 संबुद्धि-लोप- -यस्य पावा १, १,
 ३६; -धे पावा ६, १, ६८.
 संबुद्धय(द्धि-अ)न्त- -न्तेन वीधि
 १, ३, १३.
 संबुद्धय(द्धि-अ)र्थ- -र्थम् पावा
 ८, २, ७; ४, २०.
 संबोधन- -ने या २, ३, ४७; ३, २,
 १२५.
 संबोध्य वृदे ३, १४५.
 संबुभूयत्- सं√भू द.
 सं√मह्, संमहयति आत्थी १२,
 २६, ७; वीधौ; संमहयत: काठथी
 १३८: १४२; १४४^१; वीधौ;
 संमहयेत् माथी २, ४, १, ५५.
 संमहयिष्या काथी ५, ६, ३.
 सं√मह्, संमहेत् पाए २, १, १२.
 संमह- -ना^२ वैघ १, १०, ३; ११,
 १०; -न्तेन हिथी ६, ६, १७१^३.

संमह-तम- -ने या २, ३६.
 संभरण- प्रभ. सं√मृ द.
 सं√मह् > संमह^४ - -मह कौघ
 ७५, ८.
 संमघ- प्रभ. सं√मृ द.
 संमवाह^५ - -हानाम् वैघ ४, ८, २.
 संमवाह- -ह वैघ ४, ८, २.
 संमवाह-वत् वैघ ४, ८, २.
 संभार- प्रभ. सं√मृ द.
 संभावन- प्रभ. सं√मृ द.
 सं√भाप्, संभापेत् आपथी ११०,
 १२, १०; १३; १५, २०, १६;
 वीधौ २, १९: ४३xx; माथी;
 संभापेत् काथी ७, ३, १४;
 लाथी ३, ३, १६.
 संभाप^६ - -यम् आज्यो १२, ५, ७.
 संभापण- -णम् आमिण २, ४, ७:
 ८; वीध २५०; विध ६४, १५; -णे
 सुधन ८६: १४.
 संभापण- -जा: माथी २, १, २, २९.
 संभाषा- -वा हिथी १०, १, ३६;
 काए ३, १४; गाए ९, १९;
 -पावाम् आपध २, २, ८; १;
 हिध २, १, ३०; ३१.
 संभाषित- -नाम् आज्यो १२, ६.
 संभाषितम् आपध १, १, १३;
 हिध १, १, ११.
 संभाषिन् (> संभाषण-पा.) पाग
 ५, १, १२४.
 संभाष्य आपध १२, १४; वैघ.
 सं√मिद्, संमिन्धि आत्थी १६, ८,
 १४; वीधौ; संमिन्द्वि काठथी
 २४; वाथ्यौ ३, ६९: २५;
 संमिन्द्यात् काथी ८, ५, ११.
 संमिध वीधौ १, १८: ५; माथी ३,
 १, २.

a) वृ. पाठम. । b) म्यप. । c) पाठो. वैघ १ सुवाघिष्ट टि. द. । d) वैघ १ द. । e) न.
 प्रयोगः । f) = योगि-विशेषः । g) = षष्ठी-विशेषः । h) = संभापणः ।

संभ्रम्- न्द्र आश्रयौ ८, १५, ६; माश्री १, ३, ३, ५; वाश्री.
 संभ्रम्, प्रा- न्द्रम् निम् ८, ६ :
 १७; -घाः शाश्रौ १६, १९, ६; वैश्री १८, १६ : १४; हिश्री ११, ६, ४०; -त्रे माश्री ८, ४, ८.
 संभ्रम्- न्द्रम् हिश्री २, ३, १९, काश्री १०, १९, ४^०; त्रे ४, १-६^०; वा २, २४^०; -दाश्र ३, १, ८; ११; माश्री २, १, ३; वैश्री ६, ११ : ३.

संभ्रमी, संभ्रयेत् अथ ६८, २, २६.

संभ्रु- संभ्रुं द.

संभ्रुम् (भोगने), संभ्रुजीयाताम् शाश्र १, १७, ७.

संभ्रुत् (द >) शी- न्नी आश्रय २, १७, ९; हिश्र २, ५, ३८.

संभ्रोत्- नाः या ७, ५; -गम् वाश्री १, ६, ३, २०; वैश्र ५, १ : ४; -गे वाश्री १, ६, ३, २१; -गेन वाश्र १६, १८.

संभ्रोत्- गिन. शाश्री १६, २१, २१.

संभ्रोत् (ग-ए) क्तम्- न्द्रम् या ७, ५.

संभ्रोत् (न >) शी- न्नी आश्रय २, १७, ९; हिश्र २, ५, ३७.

संभ्रुत् (कौटिल्ये) > संभ्रुत् पाश्री १२, वीश्री ४, ४ : ३६, माश्री.

संभ्रुत् (वधा.), संभ्रुत् अश्रयो १२,

११; संभ्रुत् वाश्री १३, ३, ११; वीश्री; संभ्रुत् वाश्रुश्री ३, १५ : ६४४; वाश्री; संभ्रुत् वीश्री २, १० : ११; वाश्रुश्री ३, ४२ : ६; वैश्री; संभ्रुत् आश्रय २, ११, ३३; १४, ३; आश्रुत् या ३, ४; संभ्रुत् वीश्र २, ११, २९; संभ्रुत् माश्री २, ५, ४, २४^०; संभ्रुत् आश्रुत् ३, १, २ : ४^०; संभ्रुत् आश्री ३, १० १६^०; वाश्री ७, ४, ३३; शाश्रुश्री; माश्री १, ८, ४, ३६; माश्र २, ४, ५^०; कौश्र ४५, ११; संभ्रुत् ... भव माश्री ७, १३, १; माश्री १, ८, ३, २९; वाश्री १, ६, ४, ३४; वैश्री; संभ्रुत् वीश्री २, १० : ९; वैश्री २१, २ : २; माश्र २, ११ : १९^०; हिश्र २, ११, १६; संभ्रुत् माश्री २, ३, १; संभ्रुत् आश्रुश्री २, ३, ३; वाश्रुश्री ४, ३३ : ५; हिश्री १५, १ : ४१; वीश्र; संभ्रुत् वाश्र १, ११, ८; वाश्र ५, ८; संभ्रुत् वाश्रुश्री ४, ३० : २०; वाश्र १, ७, २; वाश्र १४, १३^०; या १०, २३; संभ्रुत् वाश्रुश्री ४, ३३ : ६; संभ्रुत् वाश्र १८, १६; संभ्रुत् आश्रुश्री २, १, २; वाश्री ४२; वीश्री; संभ्रुत् माश्री ११, ३, १६; शाश्री ४, ३, १७; संभ्रुत् माश्री

१, २, ४, १४४; वाश्रुश्री; संभ्रुत् आश्रुश्री २१, ५; हिश्र ६, ६४. संभ्रुत् आश्री ५, ९, ८; ६, १४, ७; वीश्री; आश्रुत् ३, ५, ६ : १७^०; वीश्र १, ५ : ४^०; वीश्र ३, १७; १२, १०; संभ्रुत् आश्रुश्री ५, १, ७; १५, ५; वीश्री; वीश्र ५, १५०; ७, ६; संभ्रुत् आश्री १६, ३५, १; वीश्री १८, १७ : १; वाश्रुश्री; संभ्रुत् आश्री ५, १३, ४; वीश्री २, १७ : २२; हिश्री ३, ४, १६; संभ्रुत् कौश्र ५, ११; संभ्रुत् वीश्री १५, ६ : ४; संभ्रुत् वाश्रुश्री ४, ८६ : ३; ११; १६; संभ्रुत् ... आश्रुत् वाश्र १४, २४^०; संभ्रुत् (अश्रुत्) शाश्री ४, १२, ९; आश्रुश्री ४, १५, ४४४; वीश्री; संभ्रुत् ... अश्रुत् वीश्री ३, २१, १०^०; माश्री ४, २०, ८; संभ्रुत् (अश्रुत्) शाश्री ४, १२, ९; आश्री ४, १५, ४; १८, ५, १५; वीश्री; संभ्रुत् ... अश्रुत् शाश्री ४, १२, ८; वाश्री १, १, ४, २४; संभ्रुत् (अश्रुत्) वाश्री ३, ८, १४; वीश्र १, १५०.
 संभ्रुत्- न्द्रु शाश्री ४, १३, २. संभ्रुत्- न्द्रु गोश्र २, ५, ७; वैश्र १, २२ : १३; अथ ७०, ३, ३; -वम् वीश्र ३, १; -वाश्र पावा १, ४, १;

d) = [अश्रुत्-रिपत्-] द्विरे-। e) = नदी-गंग-। c) = दक्षिण-। टप. अश्रुत्-प.।
 d) भिः इति पाठः? पति. गोपः (वृ. हिश्र.)। e) पति. वैश्र २, ३ खं. संभ्रुत् मंत्रा १, ५, १६ टि. द.।
 f) स्या. शी १२, ३, १० वे १७, ३६, १० सुभ्रुत् इति पति.। g) परत्-पति.। h) पति. वैश्र २, ३ खं. सुभ्रुत्
 तेषा १, ४, ४, १० टि. द.। i) पति. वैश्र १ पर्यवत् अ १०, ५९, ५ टि. द.। j) पति. वैश्र १ संभ्रुत्
 तेषा ४, ४, ७, २ टि. द.। k) = स्या. तेषा ६, १, ३। ल १७, १८, ८ शी १८, ३, २ सुभ्रुत् इति पाठः। l) स्या.
 अ ८, १३, ११ सुभ्रुत् इति पाठः। m) स्या. अश्रुत् (ते १, ६, १, २ च) <> अश्रुत् (मा २, २५ मन्. च)
 इति पति.। n) अश्रुत् इति पाठः? पति. गोपः (वृ. पाठः)।

६, १, १५४; मीत् ६, ४, १४; ९,
 ३, ३०; -ये वैयाधौ ४२, १०;
 -वौ शैवि ३०.
 संभव-काल- -ः गोरु २, ५, ८.
 संभव-वर्ष(१)शैवि १०; पाथि ३०.
 संभवत्- -वत् वाण १, १, १४;
 -वत्तः नित् ६, ७: १४; -वत्ति
 लाश्री ६, ४, २; -वत् वाधुथी
 ३, ३५: ५; ४२: ११; ४५:
 १२; ४, २०: ५; मीत् १, २,
 २४; -वन्तौ वीण ३, ५, ७.
 संभवन- > -किया- -या पावा
 १, ४, २३.
 संभावन- -स्य पत्ता ३, ३, १२२;
 -ने वा ३, १, १५४; ६, २, २१.
 संभावन-वचन- -ने वा ३, ३,
 १५५.
 संभावना(न-प्र)व्यव- -त्व-
 -त्वात् पावा ३, ३, १२२.
 संभावित- पाग २, १, ५९.
 संभाव्य काठश्री २०.
 संभा(व्य >)व्या- -व्या शैवि
 ११२.
 संभु- वा ३, २, १८०.
 संभूत, ता- -ता आपथी ६, ३, १२;
 १६, २९, २०; वैश्री १८, २०:
 २००; द्वित्री; -तम् आपथी ५,
 २, १०; -तस्य या ३, ४; -ता
 आपां २, १४, १०; -ता:
 अव २२, ६, ४; -ते वा ४, ३,
 ४१; पावा ४, ३, ४२.
 संभूति- -तिम् विष ३०, ४५;
 -त्यै शौश्री १६, २२, २०.
 संभूय नृ आपथी ५, १०, ३; १२,

२४४; वाधुथी.
 संभूय-वणिग्- -णिताम् विष
 ५, १२५.
 संभूयत्- पाग ३, १, २७; ४, १,
 ११.
 सांभूयि- वा ४, १, १६.
 संभूयस्य वा ३, १, २७.
 सं०भू, संभवे वाधुथी ३, १००: १;
 संभरति काथी २६, १, १; आपथी
 १, ६, १; १०, १८, ४०; ४४;
 वीथी; संभरन्ति काथी ११,
 ७, ३; ११; वीथी; नृसंभ-
 रति आपथी १, ४, १२; ६, १२;
 ५, १-२, ४; वीथी; नृसंभरस्व
 आपथि ३, ६, ३: १५; वीथि १,
 ११: १३; नृसंभर वीथी २,
 १८, १३; आपथी ९, १०, १०;
 वीथी १४, २५: ५; माथी;
 माथी ३, ४, १०; अथाय ५,
 २; संभरत् वाधुथी ४, ११:
 ४७; १०३: ६; सम् (भरत)
 काथी १४, १२, ८; संभराम
 वाधुथी ४, १-३: ६; नृसंभरत्
 वीथी १५, १७, १; आपथी ५, ३,
 १; माथी; नृसंभरः वीथी
 १४, २१: १९; नृसंभरत्
 वीथी २, ६: २६; वैश्री १,
 ७: १४; संभरेत् काथी १६,
 १, २४; आपथी ५, १, ६: ९,
 १, १०; १६, ३, ५; वीथी;
 संभरेयुः आथी ६, ६, १;
 नृसंभरेम् आपथी ५, १, १०;
 माथी १, ५, २, ११; काथी.
 संभ्रियते वीथी २४, २१: ४;

वैश्री १४, ५: ५.
 संभरण- -या: वीथी १०, ४२:
 ७; -णम् वीथी २१, ४: २२;
 -ने वीथी २०, २: ३७; ४२.
 संभरणौ- -व्या काथी ९,
 ५, ६; -व्याम् वीथी ७, ६:
 १२; ८, १: १५; ९: ७.
 संभरण-प्रवृत्ति- -तीन् वीथी
 २१, १३: ३; २४; १४: ११;
 २५: ७.
 संभरण (व-प्र) दि- -दि
 आपथी १९, १३, १०; द्विथी
 २३, २, ४३; -द्या: आपथी
 १३, १, १६.
 संभरणीय- -या: वैश्री १८, ६:
 ५; -ये वीथी ८, १: १४.
 संभरद्- -त्ताम् नित् ५, १०:
 १; -नृत् आपथी ५, २, १;
 ४; -नृत्तः आपथी ५, १, ७;
 ३, ४.
 संभरमाण- -णः वाधुथी ३, ६९:
 ३१.
 संभरिष्यत्- -ष्यसु दाथी १४,
 १, ६; लाथी ५, ५, ६; -ष्यत्
 आपथी १५, १, १; वीथी.
 संभरिष्यमा(ण >)ण- -णायात्
 द्वित्री १०, ८, २०.
 संभार- -रम् वीथी २, ६: १४;
 १७; माथी ५, १, ७; मीत् ७,
 १०; ८, ८; ४३, ४; ४७, २;
 -रा: आपथी ८, १४, १८;
 आपथी ५, २७, १; ७;
 १५, १, ८; २, ७; वीथी;
 -राणाम् आपथी १९, १४, २०;

a) हु. जीसं. प्रयासं. । अस्तं इति केवलानन्दः । b) संभुमत- > -ने इति पाठि. । c) पथ. ।
 d) पाथि. वैप १ संभूतः वै १९, ४६, ३ टि. द. । e) सुभुषीयः एतावतः । f) ४ २५४ ६ टि. । g) पाथि.
 वैप २, १४. संभार एता १, ४, ५, १० टि. द. । h) संभरेताम् इति पाठः । (हु. DO.) ? 'रताम् इति शेषः (हु.
 पाथि.) । i) वैप १ विदिष्टयोः एतावता द. । j) = पात्र-निषेध- । k) हु. ज्ञान; वै. DL ससं इति ।

२५; वीथी; -रामि वैथी १८,
 १:३३; -राम् काथी ४,१,१२;
 २५,१,२; २६,१,१४; आपथी;
 वीथी ६, १८: २००; - रेभ्य;
 वीथी १०, १८: १२; -रेषु
 काथी ४, १,१; आपथी; -रै:
 काथी २६,१,१५, आपथी १४,
 १५,२१; १५,३,२०××; माथी;
 -रौ वीथी २२,४: ३.
 संभार-निवपन- नम् माथी ८,
 ४,१७; -नात् काथी १७, ३,
 २७; वीथी २, ७: १४; माथी
 ५,३,२४.
 संभारनिवपना(न-अ)न्-
 न्नाम् आपथी ७,१,२.
 संभार-प्रवृत्ति- -ति माथी ५,
 २,१५,२९.
 संभार-मन्त्र- -न्त्रा: वैथी १,
 १९: १३.
 संभार-यगुम्- -हुभि: आपथी
 १४,१९,१;२; माथी २, १, ५,
 १५; द्विपि १९: ८; -वृष्णि
 आपथी १०,१,५××; माथी.
 संभार-वर्षम् काथी ८,१४,१८.
 संभार-दोष- -यम् माथी १, ५,
 ४,३.
 संभार-संभरण- -न्नाम् वामिपु
 १,७,३: १०.
 संभार-संभरण-काल- -ले
 वामिपु १,७,४: ३.
 संभार(र-ज)यं- -यम् वैपु २,
 १७: ५.
 संभार(र-भा)द्वयं- -रु: वैथी
 १३,१: २.

संभार्य^०- पावा ३, १,११२; द्विथी^०
 १६,५,२२^०; ३७,६, ३; -र्यम्
 आथी १०, ३, ५^०; काथी २४,
 १,१६; आपथी २१,१५,१३^{००};
 १६,१^०; वीथी; -र्ययो: आथी
 १०,५,६^०; निम् ५, ११: २३;
 १२: २४; -र्यं आपथी २१,
 २५,३^०; द्विथी १६, ६, ३; १८,
 ३,११; -र्यो^० आथी १०,४, २;
 आपथी २१,१६,१०.
 संभार्य-स्तोत्रीय- -य: ध्रुम् १,
 २: ४; ८: ४; २,४: ७,५: ६.
 संभार्य(य-भ)न्वित- -रानि
 निम् ७,५: १६.
 संभृत,ता- -नृत: काथी २१, १,
 १७^०; आपथी ५,३,१; १९, ८,
 १; वीथी २,६:३७; द्विथी २३,
 १,३६; पापु १,१४,३१^०; भापु;
 -तम् आथी ४, १२,३; माथी
 ५,१,७; माथी २,१,१,२४; वैथी
 १९, ७: १०; वैथी ८: १७^०;
 निम्; वा १४, २५; -नृत्वा
 आपथी ५, २६,५; द्राथी २, ४,
 ११^०; लाथी १,६,१^०; अप ४६,९,
 २१; १०,३०; -ता: आपथी ५,
 १^०; ६,२७, १^०; वीथी; -तात्
 काथी १४, ५,२३; -तात् काथी
 २६, १, ११; वैथी १, ७: १;
 -ताम् वीथी १०, ४८: २९^०;
 द्विथी ११, १, ३२; -तापाम्
 द्राथी १४,३, १५; लाथी ५,७,
 १४; -ते वैथी १, ४:१६; द्विथी
 ३,२,३, -तेन वापुथी ३,२२:
 ८; १०; -तेषु द्राथी १४, १,१;

लाथी ५, ५, ६; कौम् १७, १;
 १४०,४; अप १९,१,३.
 संभृत-तम- -नेन काथी १०,
 १५,६^०.
 संभृत-संभार^०- -र: वीथी ३,
 १: १.
 संभृतता(त-अद्)द्वा^०- -ना
 आपथी ४,७,२; माथी ४, १०,
 १; द्विथी ६,२,१७^०.
 संभृत्य^०- -रु: आपथी ५,२६,
 ५; वैथी १,१९: ८.
 संभृत्य काथी १८,५,४; आपथी;
 द्विथी ११, १, ४७^०; संभृत्य-
 उसंभृत्य वीथी २, ६: १७.
 संभृत्य- पावा ३, १,११२; -र्या:
 वीथी ३, १: २; ३; वैथी १,१९:
 १३^०.
 संभ्रियमाण,णा- -नृण: काथी २६,
 ७,५०; ध्रुम् ४, ११५; -णावाम्
 द्विथी १०, ८, ११; लाथी ५,७,
 १४.
 संभेद- सं/निद् द.
 सं/ध्रंश्च, संभ्रयैत काथी १७, १०,
 १०; कौम् २, ७, २०; शंप् २,
 १२,५.
 सं/ध्रम्^० संभ्रम- पाप ५, १,९७;
 -म: अप ७०^०, ८, १; -मेण
 पावा ८, १,१२^०.
 संभ्रम- पा ५, १,९७.
 संभ्रमति^१- पाप ५, १,१२३.
 संभ्रमत्य- वा ५,१,१२३.
 संभ्रमि-ता-, *वि-स्व, *तिमद्- पा
 ५,१,१२३.
 संभ्रमति- सं/मत् द.

a) = अनुवाक-विशेष- (सैत्र ३,८) । b) वैप १ द. । c) = महीन-विशेष- । d) परस्परं पामि. ।
 e) पामि. वैप १ संभृत: वै १९,४६,३ टि. द. । f) धरा. संभृत्यम् (ले ३, १,२ जैमि १,७४ च) <>त्ता (की
 २,११८० पद्म १,४ च) इति पामि. । g) पथ. । h) ऋ: इति पाठ: ? यमि. सोपय: । i) पामि. वृ २२३२ ०
 द. । j) पामि. वैप १ संभृत्य मा ११, ५४ टि. द. । k) वृ. पमि. । l) मलो. पथ. ।

सं०मद्, सम् मृन्ति या १०, २६, ३१; सम् मदेम आपथी ५, २, ४; १८, २; माथी २, १, १, ६; कौष्ट ३, ६, ९; कौष्ट.
 सं०मद् - मद्: या ९, १०, १०.
 १ सं०मद् - पा ३, ३, ६८.
 सं०मद् - नन्तः शीथी ८, २०, १.
 सं०मद् -> सांमद् - नः आथी १०, ७, ८; शीथी १६, २, २, २; श्रम २, ८, ६७.
 सं०मद् (*वधा.), संमन्वेत् माथी ५, १, १, २.
 सममंसव या ४, २५.
 सं०मत् - वम् देव्यो २.
 सं०मत् -> म् (ति-अ)थं - थं आथी २, ११, १०.
 सं०मन् - वात् या ७, १७.
 सं०मात् - नाम श्रं २५२; -नात् याथि २, १०१; -ने वैथ ३, ७, २; -नेव सुष्य ८८: १.
 संमान-कर - रः क्रया ११, ६१.
 संमाना(न-अ)वमान-सम - मा: वैथ ३, ६: ६.
 सं०मात् - नात् या ७, १७.
 संमानव-शास्त्रीनीकरण - गयो: पा १, ३, ७०.
 संमानतो(न-उ) एवज्ञान(न-अ) धार्मिकरण-ज्ञान-श्रुति-विश्वम्-न्यय - येपु पा १, ३, ३६.
 सं०मन्सु - पाया ५, १, १२३; -नसु: कौष्ट ९८, २१.
 सांमन्सु - पाया ५, १, १२३;

-सम् कौष्ट ४२, ६; लभ ३, ८; ३०; ६, ६४; ७४; ७, ५२; -स्यानि कौष्ट १२, ५; -स्ये अथ ६, ७४.
 संमन्सु-ता- , नन्-सु- , निमन्- पा ५, १, १२३.
 सं०मन्त्रि (<मन्त्र-), संमन्त्रयेत् शंथ २८६.
 सं०मन्त्र विष ५, ११४; वृदे ५, ५८.
 सं०मर्दिन् - सं०मृद् द.
 सं०मर्श - , शंथ - सं०मृद् द.
 सं०मद्, सं०संमदेम > मा वीथी १७, ४०: १; आपत् २, ७, १; आभिए १, ३, २: १; भाए.
 सम् म् महयति कौष्ट १, २, ६२.
 सं०महसु - न्मोम्य: आथी ३, १, १४; वैताथी १८, ६.
 सं०मा(माने), संमिमते निष् ३, ५: ७; संमिमते निष् २, २: ६; संमि(मिमिने) अर्थ १: २८.
 संमोपात् छुम् ३, १६: ३.
 सं०मा - मा वीथी ९, ७: २०; निष् ३, २: ४; ५; क्रया १७, ११.
 सं०माव - नम् दिथी ९, ८, ९.
 संमान-मात् - नम् या ४, २५.
 सं०माय आपथी ५, १४, १; वीथी.
 सं०मिन्, वा - मा: आपथी ५, २, ४; १३, ९; वीथी; वैष्ट ६७: ५; -तम् आपथी ५, १८, २; ११, ८, ११; १०, १५; वीथी; आभिए २, ६, ८:

२२; वीष्ट ३, २, ४; आप ४६, ८, ३६; शंथ ११५, ५१; -तस्य कौष्ट ३, २, ६; भाए ३, ३, २; -सा शंथी १२, २१, २; वीथी २५, ११: ४; वाधुथी; -मा: शीथी ७, २७, २९; आपथी ५, ६, १; वीथी २, ६: २५; १९, १०: ६१; हिथी; -तात् आपथी ११, ९, १; हिथी ७, ५, २५; १०, ३, ४; -तानि आपथी १९, २१, २; हिथी २२, ४, २; -ताम् आपथी १४, ६, १०; ३३, ३; वीथी २४, २४: १; हिथी; -तात् आपथी १७, १६, १८; वीथी १०, ५३: ७; वीथी १९, ६: ११; -ते शुम् १, ९: १; आभिए २, ४, १: १६; भाए २, ३: १०; -तौ हिष्ट १, २७, ४०.
 संमिथी - न्मोम्य: कौष्ट ३, ३, ७.
 संमिन्-वैथवा - मा: कौष्ट ३, २, २४.
 सं०मिति - न्मो पा ४, ४, १३५.
 सं०मीयमान - न्मो आपथी १४, ८, ७; हिथी १०, ८, २९.
 सं०मात् - न्मो माथी ५, २, १०: १८.
 सांमात् - पा ४, १, ११५.
 सं०मार्ग - , न्म - प्रम्. सं०मृद् द.
 सं०मि, संमितोति आपथी ७, १०, ९; १४, ५, ४; १९; १७, २३, ६; वीथी; संमितुत् वीथी २१, १७,

a) पाथे. वैथ १ सुम् मृन्ति क १०, ८२, २ वि. द. । b) उप. कर्ति ह्य । c) म्प. ।
 d) तु. वान. । e) उप. = मान. । f) सपा. नाथि २, ८, २५ सौष्ट्यात् इति पाथे. । g) वैथ १ द. । h) माप., म्प. (देवता-), नाप. (मन्त्र- वा सुक्त-का) । i) तु. वान. । *हे इति छ. ।
 j) = छन्दो-विशेष. । k) = विनायक-विशेष. । l) पाथे. ५ १८१९ मा द. । m) = मद्-विशेष. ।
 n) *का इति शक. । o) परात् पाथे. । p) = संमित-देशा. । q) समिती इत्यपीति पाथा. ।
 र) = सं०मात् - (तु. वैथ १) ।
 वैथ-प्र-९०

१२; संमिन्वन्ति आपथी २०, १,
११; संमितुपात् आपथी २२,
१४, ११; वीथी २५, २३ : १७;
३४ : २, माथी.
संमीर्यते आपथी २२, १०, १६;
द्विथी १७, ४, ३४.

२संमित- नम् वीथी १, ६, ३,
१९; वैथी १४, १० : ३; -वः
वाथी ३, २, ६, १५.

संमित्य वीथी १०, ५५ : १४४.

संमिन्वत्- नः या १०, २१.

संमीय वाथी ३, २, ७, २४४४.

संमेष्यत्- न्यन् वीथी ११, २ :
१२; २५, ३३ : १६.

१संमित- संमिति- सं०मा द.

१संमितमुपयायणः चात्र ३० : ८१.

सं मि(आ, श्ल) >)आह, श्ल) - आ
वत् २, ६, ९; -इत्वाः वैताथी
३१, २७१.

सं०मिह्, सम्-मिमिह्व > ह्य
श्या ७, ३३१.

सं०मीयमान- सं०मा द.

सं०मील्य, संमीलति भाथी ११, ११,
५, संमील्य आपथी २२, ३, २,
द्विथी १७, १, ३९; त्राथी ६, १,
१५; वाथी २, ९, ११.

संमीलयति आपथी १५, २०, ५;

माथ ३, ६ : १३; संमीलयति

वाथी २७ : ४; १५, संमीलयत्

वैथी १७ : १९.

सं०मीलन- नम् द्विथी १७, २, १०.

सं०मीलित- ताप गोथ ३, २, २९.

सं०मील्य आपथी ८, १४, ७४४; माथी.

सं०मील्य - ल्येपु उमित् ६ : १९.

सं०मुत् - नम् आपथी १५, २०,

६९; वीथी ९, १९ : २८०;
माथी ११, २१, ६०; माथी ५,
१, ६, २१; माथ ३, ६ : १४०; वत्
३६, ३०, ३; विथ ९८, १००;
-स्वान् आपथी १२, १२, १११;
वीथी ७, १ : २४; ६ : १६; २० :
५; ८, १ : २०; वैथी; -सेपु काथी
९, १, ५.

संमुखी > संमुखो-कृत्य वैथी
१५, १४ : १.

संमुखीन- पा, पावा ५, २, ६.

सं०मुद्, संमोदन्ते या २, १०; १०,
२६; १४, १९.

सं०मोदन- (<संमोदधिक- पा.)
पाग ५, १, १०१.

सं०मुह > *मुह- वः वत् ३, ३, ५.

सं०मोह- हत् श्दे ७, ८४.

सं०मृज्, संमृष्टे वीथी ११, ४ : ३;
१५, २८ : ३; संमार्ष्टि काथी

२, ६, ३९; ३, १, १३४४;

आपथी; संमृष्टः वीथी ५, ५ :

३४; संमार्ष्टि आपथी २, ४,

८; १३, १; ३, ४, ७४४; वीथी;

संमृज्नु माथी २, ३, ४,

२०; वैथी ९, १४; १५;

वैताथी १०, १७; संमृष्टि

काथी २, ६, २६; ३, १, १२, ५,

१४४; आपथी; संमृष्टि

आथी १, ३, २८; संमृष्टि वीथी

५, ५ : ३१; संमृष्टीत आपथी

१, ३, २८; संमृष्ट्यात् भाथी २,

४, १०; द्राथी ३, २, २३; २३;

४, ३६; ५, २, २३; ४, ६; वाथी.

संमृष्टे वीथी २०, १० : १;

४; २६ : २९; वैथीका १४१;

वीथि ३, ५, २.

सं०मार्ष्टि- वः आपथी १, ३, २८;

-संम् माथी १, ३, १, ३; ८४४;

वाथी; -सार्ष्टिम् काथीसं २२ :

३; -सार्ष्टि आपथी २, १५, ४;

४, ११, ६; वाथी; -सार्ष्टि वैताथी

२, १३; -सार्ष्टि आपथी ३, १, १३.

संमार्ष्टि-न्य- न्यैः आपथी १, ३, २८

सं०मार्ष्टिन- नम् काथी ५, ६, १५;

माथी १, १, ३, ४३; ७, १, २८४४;

शोध १०३; -नात् माथी १, ७,

१, २७; ४, १०; शोध १७८;

-सार्ष्टि काथी २, ६, ४३; माथी

२, ५, १; ३, ४, ९; माथी १, २,

५, ८; -सार्ष्टि काथी ५, ५, ५;

-ने वीथी २०, १० : ३; भाथी ८,

८, २; -नेन विथ २३, १०; ५६-

संमार्ष्टिन-काल- न्ये आपथी ७,

८, ६.

संमार्ष्टिन-दृष्टनो(न-उ)दृष्टनिय-
-याः गीथि १, ४, १२.

संमार्ष्टिन-प्रभृति- ति द्राथी ५,

४, १५; वाथी २, ८, १५.

संमार्ष्टिन-प्रोक्षणे(स-उ)पलेपना
(न-अ)वस्तारणे(न-उ)लिलन-

-नैः वीथि १, ५, ५८.

संमार्ष्टिन-सादन- ने वीथी २०,

२६ : २८; २९.

संमार्ष्टिना(न-आ)दि- दि वाथी

५, ५, १३.

संमार्ष्टिना(न-अ)नर- नम्

काएउ ४२ : १.

संमार्ष्टिनो(न-उ)पलेपनो(न-उ)

लेपन-प्रोक्षणे(न-उ)पक्षर-
-नैः वाथ ३, ५६.

a) वैथ १ द. । b) = सान-मिथेन- (सु. वाया ३, ६, १२) । c) प्राव. वा वत्. वा (वै. पाणि. १ सप्त-
मुप- > प्य. इति) । d) वधिष. वा. निधि. । e) संहते (सहितं) मुलेनेति प्राव. । सपा. स-मुपम् इति पागे.
(इ व २५०१ h, i, j) । समुपम् इति वीथी. मूत्रो. । f) = [ह्यसंनदन-] लृण- । g) = इत्युत्थिताऽऽपन- ।

सं-माग्वं वैताथी २, १३; अप.
सं-सृज्-ज्व माथी १,३,१,४.
सं-सृज्य वाथी ३, १,१३; याथी;
आपथी १६, १,४; द्विथी १२,
१,७६.

सं-सृज्यमा(नं)ना- नाम्
आपथी ४,५, १; माथी ४,६,
४; वैथी ४,११:५; द्विथी ६,२,२.

सं-सृष्ट,षा- ष्टः आपथी ८, ६,
२३; वीथी ५, ७:४; माथी;
-ष्टस्य वीथी ४, ९: १९;
-ष्टानि आपथी २,४,९; वीथी;
-ष्टाम् वाथी १, ३, २, १;
द्विथी १,७,११; -ष्टे काथी ८,
३,२९; वीथी; -ष्टेषु वैथी १४,
२: ८; -ष्टौ काथी ३, २, १५.

सं-सृष्ट-वैश(इम)स्मा^०-
-इमासु विष १२,२२.

सं-सृष्टो(इ-उ)पलिस-सम् वीथ
१,६,२२; -से वीथ २, ७, २.

सं√सृद्, संसृद्नाति क्रौम् २७,१९.

सं-सर्दिन्- पाग ३,१,१३४.

सं-सृदन्- न्युन् क्रौम् ३६, २३.

सं√सृद्, संसृदते आपथी १९,१०.

२; वीथी १, ४: १४४; वैथी;
संसृदति वाथी २, ८, १९;
१७, १०; ४, ७, १०; काथी;
संसृदते काथी ८, ५, १३;
वैथी १४, ८: ६; ८; संसृदतः
वीथी ७, ११: ३; द्विथी ७,
६, १८; २१४४; संसृदन्ते
आमिथ ३,७,२: ४; वीथि १,
१७: २४; संसृदन्ति वाथी

४,१५, ५; वीथी ७,११: ९;
१७; माथी; कौष्ट ५, ४, ६९;
संसृदते आपथी ११, १२, ३;
माथी २, २, १, १०; वैथी;
संसृदन्ताम्^०आमिथ ३,७,२:
५; वीथि १,१७: २५; संसृदोव
वीथी २४, ३४: ६; १३४४;
संसृदोव वीथी २, १८: २०^०;
३, ४: १९४४; आष्ट.

सं-सर्ज- -र्जं वीथी २०,२०: ८.

सं-सर्जन-नात् वाथी ५,३, १५;
१७, २,६; -ने वीथी २०,
३०: १,२१,९: ४.

सं-सृदन्- नात् वाथी १७, १५,
१०; गोथ ३,४,२८;

सं-सृदन् आथी ५, ३, १९; काथी;
आमिथ १, ६, ३: १४^०.

सं-सृष्ट- सं√सृष्ट् द.

सं-मेप्यत्- सं√मि प्र.

सं-मोह- सं√सृष्ट् द.

सम्यच्, क्व- सम्√अच्,ञ्च् द.

सम्यत्^० वीथी ६, १५: २९; वाथी

२,१,८, ११; वैथी १२, १९:
३६^०; द्विथी ७,२,७४.

सम्√रा > सम्-सर्ज- पा ८,
२,२५; पाग ४, १, १५१; ५,
१, १२४^०; -नराजः वाथी
१०, ५, १४; ऋथः -राजम्
आथी ६, ४, १०^०; वाथी;
वीथी १०, ४०: २^०; -राजि
शुभ ४,६; -नराजे वाथी १२,
१०, ४; वीथी; -राज् (स्)
नृवाथी १, ८, १; ४, ६, ३, १७,

२४४; वाथी ३, ५, ८^०; काथी;
निम् १,५: १८^०; अत्राय ३,
१; अत्र ७, ८१; १२, १८^०;
श्रया १७, ५^०; -नराज्(स्)
वाथी २,५,१३; ३,१२,२३४४;
वाथी २, १५, ३; आपथी.

साम्राज्य- पा ५, १,
१२४; -ज्यः वीथी १४, १:
२६; -ज्यम् वाथी ५,१३,११;
वीथी ६,१४: ७^०; १४, १:
२४; २५; -ज्यस्य^० आपथी
१५,१५, १; माथी ११, १५,
२८; -ज्यानात् पाठ १, ५,
१०; आमिथ १, ५, २: २९;
वैथ १, १०:९; -नृज्याय वाथी
१७,१६,३; आपथी ५,९, १०;
वीथी १२, १४: २१; माथी;
-नृज्येन आपथी १७,१९,८^०;
वीथी १०,५८: २^०; ३^०; ११,
७: १३^०; १४^०; वैथी १९, ६:
१२०^०; द्विथी १२, ६, ११;
१२^०.

साम्राज्य-स्व- न्यम्
द्विथी २४,६,१२^०.

साम्राज्य- पा ४,१,१५१.

साम्राज्य-वति- -ति: काथी ५ १३,
११.

साम्राज्य-वद्- -वद: कथा ४,
२३.

साम्राज्य-स्वराज्- -राजो: वाथी
९,८, २१; वैताथी ४०, ३.

साम्राज्य-वासन्दी- -न्दी वैथी
१३,७: ९; आपथी २, ९, ८^०;

a) ष्यम् इति पाठः? यति. शोषः (ह्र. आपथी.) । b) वस. समासन्तः अच् प्र. । c) षि इति

पाठः? यति. शोषः (ह्र. भाष्यम्, सप्त. वाथी ४,१५,५५) । d) पागे. वैप १ सुविशन्तु ऋ १०,१८,७ टि. द. ।

e) षि^० इति पाठः? यति. शोषः । f) वैप १ द. । g) संवत् इति लैटि. । h) सम्यच् इति संसृज्: टि. ।

i) ह्र. पागम्. । j) = इष्टक-विशेष- । k) = छन्दो-विशेष- । l) पागे. ह्र २०८७ इ. द. । m) पागे. वैप १

साम्राज्येन मा १८, २७ टि. द. । n) स^० इति पाठः? यति. शोषः (ह्र. वृ २०८७ i) ।

-न्दीम् काथी २६, २, ३२,
 आपथी १५, ५, ७, ६, १०×५,
 बीथी, -न्धा आपथी १५, १३,
 ९, माथी ११, १३, १३, -न्धाम्
 आपथी १५, ६, १५, १२, २,
 बीथी
 सत्राद् दुह्- दुहम् बाथुथी
 ३, ४६. १, १४, १६, १८,
 -युक् बीथी ६, ३४. १
 सम् राज्- -यम्^१ आपथ २, ८,
 ८, २२, २०, वैथ २, १५ २
 सम्-राज्- -जे बीथी २, १९ ७^१
 पृथगात्थी- -त्री^१ आपथ १, ६,
 १^१, शंथ १, १३, १, काथ २५,
 ४७^१, श्रथा २, ५९
 स^१य^१- यम् श्रथा १४, ४३, ४४
 स^१यकार- -यम् श्रथा २, १, ७,
 गाथि ७, ५, -राणि श्रथा २, ४,
 १२
 स^१यकार-यकार- -यम् तैथा
 २०, २
 स^१यजमान- ना काथी २, ८, १७,
 १०, १, २३
 सयजमान क- -का तैथीका १२८
 स^१यजुस्- यजम् बीथी १२, १
 २, २४, ३४ ३, १२, माथी
 ६, १, ७ ८, ११, ११, ३, १२
 स^१यज्ञ- यम् श्रथा ११६ १८,
 -शा वाव ६, ४
 स^१यज्ञ पुञ्ज- -कथ बीथी २६,
 १९ १४

सियति धामिथ २, ५, १०: २९
 सयन- ✓सि द
 स^१यन्तुक्- -कम् काथी १५, ६,
 २७
 स^१यव, वा- -यम् बीथ ४५, १,
 -वाय कौम् ८४, ४, -वाय
 बीथ ७१, २३, ८६, २६, -वे
 कौम् २८, २०
 स^१यव^१- -यं शुभा १, १११,
 गाथि १, ७८
 स^१यरास्- -शा शंथ ६, ५, ३१^१
 स^१य्याजुप- -यम् बीथी २०, २
 ४२.
 सियति^१ श्र १^१, ६
 स^१य-याव(व>द>)री^१- -० रि
 धामिथ ३, ५६ २, ५, बीथि १,
 ४ १९, २१, शिथि ५ ३, ४,
 -री आपथी १, ११, ८
 सियी काथीसं २८: १०
 स-युज्- युक् श्रत २ ३, ७^१, -युग्मि
 काथी ६, ३, ११^१, -पृथुज
 आपथी १३, १८, १०^१, १७,
 ५, २६, वैथी १२, ५ १५^१,
 हिथी १२, २, १^१, बीथी ७, १३
 २४, वैथी, हिथी १२, २, १६,
 -युजम् बीथी १०, ३२ २,
 ८×४, वैथी, -पृथुजा आपथी
 ६, २१, १, १७, ५, २, बीथी,
 -युजी बीथी १०, ३८ २,
 १×४, श्रथा ६, १४०^१
 सायुज्य- यम् बीथी १४, ६२,

२, आपथी ४, १०, १०×४, बीथी
 सायुज्य काम- -बी काथी १
 ३० ८
 स य्यू-^१ > सयूथ्य, ध्या- पा ४, ४,
 ११४, -पृथ्व काथी ३, ३, १,
 शंथी ५, १७, २, माथी ५ २, ६,
 ७, भाथि ५६, -ध्या धामिथ
 २, ५, ३: २५, बीथ ३, ७, १८
 सियेति धामिथ २, ५, १०: ३१
 स^१योक्, क्त- -यम् माथी ६, ३,
 ५, १७, -पृथा काथी ८, १, ५,
 -क्ते आपथी ३, १०, ७, वैथी
 ७, ११: २, हिथी ३, ५, ३८
 स^१योध मुय्व^१- -रथा श्र ५६,
 ४, १.
 स^१योनि^१- -नि या १४, २३, -नी
 श्रथम १, ११, ७, ८, बीथ ३,
 ११, ४, -य्व धामिथ २, ५, ३:
 २४, बीथ ३, ७, १८
 ससरक- (>सारकायन-, श्रथ-
 श्रथ- पा) पाप ४, २, ८०^१
 ससरक- पाठमो २, २, ७, पाप २, ४,
 ३१^१.
 ससरक- ✓सि द
 सर(व>)घा^१- पाठमो २, २, ७०,
 -था गाथि ३८^१
 ससारव^१- यम् आपथी २१, १९,
 १९, बीथी १६, २३ १०, बीथ
 १, ४, ४, माथ, -सय्य आपथी
 १५, १०, १, बीथी ९ ९ २४,
 माथी ११, ९ १७, २४, ४, ४

०) उप करीर अच् प्र । ४) सपा माथ २ २१ २० सराजम् इति, बीथी १७, ४१ २० प्रथ
 स्वराजम् इति च पति । ८) पाप ४ २४६८० इ । ८) = यत्-१ ८) उप = १२-१ । ९) उप द्वय ।
 ९) उप पय । १०) सजाति इति सस्कृट् टि । ११) वैप १ इ । १२) = स्युक्-व्यञ्जन । १३) पापे वैप १
 स्वयुग्मि शी २, ५, ४ टि द । १४) पापे वैप १, २४४३ टि द । १५) युज इति पाठ ३ यन्ति शोच (इ
 गाथी) । १६) सवा वै १२, ४९, ११ सयुक्ता इति पापे । १७) पापे वैप १, २२३१ इ ।
 १८) ४ २४२३, क इ । १९) वक् > पय । २०) = स्यु-योनि- (इ वैप १) । २१) सहर सकव- इति पाका ।
 २२) = मय इति पापम् ।

स^१-रङ्ग^०-इन् शीति १४७.
 स^१-रजस^०-असि^० बंधी १७, १५;
 १; १६ : ३; द्विधौ १३, २, ४.
 स^१-रजस^०-से^० आपथी १८, ५,
 १३; लाघौ १०, १९, १५.
 सरद- पाठ १, १३४.
 सरट- पाठभो २, २, ९७.
 १, २सरण-सरणि- √य द.
 सरण्ड- पाठ १, १२९.
 सरण्यु- √य द.
 सरण्यु^१-ण्युः अप ४८, १३९†;
 वृदे २, १०; ८०; ६, १६२; ७, १;
 ४; निप ५, ६९†; या १२, १०†;
 अभा ३, ४, १†; -ण्युम् वृदे ६,
 १६२; -ण्याम् वृदे ६, १६३;
 ७, ३.
 सरण्यु-देवत, वा- से वृदे ७, ७;
 ऋञ २, १०, १७.
 स-रथ, था^०-न्यथ् प्राथी ५, १९,
 ७; शौधौ ८, ५, १; कौषु ८१,
 ३९×४; या १०, ३०; -या
 शौधौ २६, ३२ : २१; -यान्
 आपथी १७, २०, ९; द्विधौ १२,
 ६, १९.
 सरपस्^१-पसः ऋषा २, ७२.
 १सरम्^१- (> ३सारमेव-या.) पाप
 ४, २, ८०.
 २सर(म>)मा^१- पाठभो २, २, २४८;
 -फंभा आपथी १२, १५, ६;
 द्विधौ ८, ४, २१; आपमं २,
 १६, ७; पाठः अप ४८, १३९;
 ड्वृदे १, १२८; २, ७७; निप
 ५, ५; या ११, २४५; -माश्

ऋञ २, १०, १०८; वृदे ८,
 २५; ३३; -मायाः चाप्र ३० :
 १६†; -मवै अप्रा ३, ४, १;
 -०मे वृदे ८, २८.
 २सारमेव^१-न्यथ् आपमं २, १६,
 ९; १०; भाए २, ७ : २३; २५;
 द्विधुः -न्यथः आपमं २, १६,
 २; भाए २, ७ : ९; द्विधु २,
 ७, २; -यम् वृदे ६, १२; -या
 अप ६४, ८, १; -न्यथै अप ४,
 ३, २१; अभा ३, ४, १.
 सरयु^१- पाठ ३, २२.
 सरयु^१- पाठभो २, १, ९०.
 सारय- पा ६, ४, १७४.
 सरयु-तीर- रे विष ८५, ३२.
 सररुक्^१-रुक् या ६, ३†.
 सरल^१- पाठभो २, ३, ९८; कि ३७.
 सारल^१-रुः शौधौ १६, १२, ५.
 स^१-रश(ना>)न-नेन आपथी ७,
 ११, ३; भाथी ७, ८, १६; द्विधौ
 ४, २, ६२.
 स^१-रथिम-स्मो अथ ६३, १, ९.
 १सरस्^१- पाठभो २, १, ३२१; -रः
 प्राथी १०, ९, २†; शौधौ १६,
 ५, १†; अप ४८, ७५†; ७१.
 १२, ५; न्यथि १, ११०; १२०;
 या ९, २६६†; -रसः अथ ७०†,
 ७, २२; वृदे ३, २३; -रसाम्
 अथ ४२, १, ४; -रसि वैष २,
 १३, ८; वृदे ७, १५१; चाथ ८,
 ३†; -रसु शंष १००†; विष १,
 १४, ९९, १७, -रसि शंष ११६†;
 ११; अप १, ६, ४; वृदे २, ५१;

या ५, १११†.
 १सरसी^१-सी पावा १, १, १९.
 सरस- पा ५, ४, १४.
 सर(स्य>)स्वा^१-रवाः काथी
 १५, ४, ३५.
 सरो-ज^०-पाप ५, २, १३५; पावाप
 ४, २, ५१†.
 सरोम-रुण्ड- पावा ४, २, ५१.
 सरोजि(र>)मी- पा ५, २,
 १३५.
 सरो-नयु(दौ-त)द्वपान- नानाम्
 अप ६४, ९, ६.
 सरो-भ(व>)न-याः विष १,
 १४.
 सरो-रु^१- (> रशि(र>)मी-
 पा.) पाप ५, २, १३५.
 सरो-वृद- ०७ आपमं २, १७,
 २†.
 २सरस्^१-> सरस्-वद- न्यथ^१
 शौधौ २, २१ : १२; १३, ३६ :
 १०; वैधौ १, १७ : १२; या
 १०, २४; -वतः आपथी २, ८,
 ३†; फंशौ २, २१ : १२; १३,
 ३६ : ५; २०, १२ : २४†; २७,
 १४ : ८; वैधौ; -वते शौधौ ३,
 १, १४†; शौधौ २, ४, २; ३, ९,
 ५; काथी; -वतम् शौधौ ३,
 ८, १†; शौधौ ६, ११, ८†; वृदे
 २, ५१; ४, २९; -यान् आपथी २,
 ८, २†; फंशामं १, १०, ७; २,
 १९, १४-१६; ध्वनिवृ.
 सरस्वती(वप्रा.)^१- न्यथि
 आपथी ३, ५, ६×४; आपथी;

a) = स-स- । b) उप. = १रु- । c) उप. = धूति- । d) वस, वैभाषिकः समाह्वान्तः
 बच् प्र. उसं. (पा ५, ४, ७७) । e) वरसरं पाभे. । f) वैष १ ख. । g) = १स-नय- (द्व. वैष १) ।
 h) इ पापम. । i) = ऋषि-विधेय- । j) = सरयु- । k) = सरल- । l) *रुक्म् इति J.N. ।
 m) निप., नाप. (रुक्-लाघौ.) । n) विकारे प्र. । o) = १उदर- । p) = वाच्- । q) = कनक- ।
 r) द्व. पावा. । s) = सपा. ऋ ७, ५६, ५१ काठ ११, १४ अथ. द्व सरस्वन् इति पाभे. ।

आपम १,१२, २^०, वीष्ट १, ७,
 ३९^०, २,१८,२^०, द्विष्ट १, २५,
 १^०, गोष्ठ १,३,३^०, द्वाष्ट १, ३,
 १८^०, -तीक्ष्णाभी २,८,२, ३,
 ११, २ x x x, शांभी, वीथी
 १३, १५ १, १६, ५, ८, १०,
 १६, १६ c x x, अथ छट,
 १०२^०, वाप २२ १९, निघ
 २९, ४, श्वे १, १२८, २, ७४,
 ७६, ३, १३, शुभ छ, १८२,
 पृनिप १, ११, वा २, २३,
 ११, २५, वाशि १, ३३, -ती
 आपम २, ११, १८^०, -तीम्
 क्षिप्रभी २, १३, ४, ३, ९, ३, ८,
 ११, १, १२ ६, ३३, शांभी
 ६, १०, २^० x x x, १३, २९, १५,
 काभी १३, ३, २६^०, आपभी
 १२, २०, ४, २३, २०, ३^०,
 वीथी १३ ३१ २ x x, माथी
 ५ १, ६, २४, वाष्ठी ३, ४२
 x x x, वैथी १५, २३ १४,
 द्विथी ८, ५, ३५, १६, ६, ४१^०,
 पाय, वैष्ट २ ६ १८, अथ
 छट, ३, ४, वाप ११६ ३०,
 श्वे २, ५१, ८१, छ, ३६, ३९,
 ६, २२, २३, ५९, १४५, अथ
 छ, १२, -तीक्ष्णाभी १, ११
 ४०^०, ५ १ १२ x x, आपय,
 -तीक्ष्ण अथ छट, ७६, निघ
 १ १३, -स्वा द्विथी १७ ८,
 ८, चाथ, -स्वा शांभी १२ ६,
 २, शांभी १३, २९, १, आपभी छ
 १०, १, ६, २३, १२, २३, २५

१२, ५, वीथी ३, १२, २७^०,
 २०, १३, २५ x x, २८, २ ३०,
 वाथी ३, २, ५ ४३^०, वैथी १,
 १७ ११, लाथी १०, १५, १, १७,
 ११, वैताथी ३६, ९^०, श्वे ६,
 २४, शुभ २, ३६२, चाथ छ०,
 १०, १४, अथ ५, ७, -स्वाम्
 काथी २६, ६, २१, लाथी १०,
 १७, १०, १८, १३, विघ ८५
 २७, -स्वै शांभी ३, १, १४^०,
 छ, १३, २, शांभी २, ४, २, ३, ९,
 २ x x, ९, २४, ५, १५, १४, ४,
 काथी ३, ७, १५^०, छ, ५, २१,
 ९, १, १५, ७, ५ x x, १९, ४,
 १४^०, आपथी ३, १६, ५, ५,
 २३, ५ x x, १२, १, ५, १७, ६, ६,
 वीथी २, २१ . ६ x x, १२, २
 ६, १६, २३ ५^०, २९ ८, ३०
 १, १७, ४७ ७, ५३ ९,
 २८, २ १४, माथी ५, १५,
 १० x x, माथी १, ५ ६, १९ x x,
 ५, ३, ११, १८, वाष्ठी, माथी १,
 ४, ४, ४३, ३, ३, १, १४, वैथी १,
 १७ ९, ११, १ ७, २: ११,
 १५ ४ ५, द्विथी ३, ५, २२, ८,
 १, ५०, १३, ३, २६, ८, ४, १५,
 २३, १, १५, वैताथी ८, २, १८,
 ५, श्वा २, १, १६४, शुभ
 २, ३३१^०, -स्वै शुभ छ, ५
 सारस्वती- -य शांभी
 ६, ११, ८, १०, १, १८, काथी,
 -वम् शांभी १७, ८, १०,
 वाथी १२ २, १९, ३, १४,

२०, २५, ३, १०, आपथी,
 वीथी २६, १२: ६^०, निष्ट १०,
 १० २, अथ ६८, १, ५४^०,
 -वस्य शांभी ६, १०, २,
 आपथी १८, २, १७, ६, १,
 १० x x, वीथी, चाथ १४
 ५, -वा वीथी २४, ३८
 ३, वीष्ट ८१, ३८, -वात्
 आपथी २४, ४, ९, वैथी १८, १,
 ५, द्विथी, -वात् अथ ५६, १,
 ८, -वात्मा शांभी १३, २९, १,
 वीथी, -वात्मा काथी १२, ६,
 १, काथी ११, ७, ५, काथी
 २४, ५, २५, ६, १४, आपथी,
 -वात्मा वीथी १७, ४७
 १२, -वात् लाथी १०, १५,
 १, -ते काथी २४, ४, २७,
 वीथी, -तेन काथी १९, १, २४,
 वीथी १६, २९ ५, २६, २ ७,
 वाथी, आशिष्ट २, ७, ४ १७^०,
 -तेषु आपथी १९, १५, ७,
 द्विथी, -ती शांभी ३, १२,
 २३^०, आपथी ५, ११, १^० x x,
 वीथी २, २१ ५ x x, २०,
 १८ ३२^०, ३४ x x, माथी,
 वैथी १, १७ ७^०, द्विथी २, ५,
 ४३^०

सारस्वती- ती

आथी ५ ३, ३, शांभी, -ती
 काथी १५, ४, २५, ३६,
 आपथी १८, २०, २३, वीथी १२,
 ८ १६, -तीक्ष्णा वीथी १२,
 ८ २५, २२, १८ ११, -तीक्ष्

d) पामे वैष्ट रसरस्वती-> -ति श्र १०, १८४, २ टि द । b) त्वा श्वति<> श्वते इति पामे । c) परस्पर पामे । d) = सव मा २०, २ तैमा २ ६, ५, २ । सै ३, १९, ८ श्वता इति पामे । e) निघ, नाप (सज- होम प्रथ) । f) पाठ ? वस्य इति कोष (तु शांभी ६, १०, २, ७ व, श्वेत माथ्यम् सारस्वती-> [११]-वत इति) । g) वम् नयनम् > सारस्वतामयनम्, सारस्वतामयनम् इति मूको । h) शर्व ? i) = देव विष्टेय । j) = होम विष्टेय ।

आपथी ७, १२, ३x५; काशीसं;
-तीषु आपथी १८, १३, १;
हिथी १३, ५, ११; -र्याः
आपथी २०, १४, ७; बौथी
१२, ८ : ४; बाथी; -र्याम्
काथी २, ४, ६; शीथी ७, १०,
८; हिथी; -र्यै बौथी ११,
५ : १४; -र्यौ ऋथ ५, ७.

सारस्वत्य(ती-
श्र)न्त-न्तान् आपथी १८,
३, १४; हिथी १३, १, २३;
-न्तानाम् आपथी १८, ६, १४;
हिथी १३, २, २७.

सारस्वत-दीष्ण-
-ष्णयोः बौथी ५, १ : २६;
-ष्णाथाम् बौथी ५, १ : २०;
-ष्णौ शौथी ३, १३, ८.

सारस्वत-शौष्ण-सैश्र-
क्षेत्रपथ्य-वाहणा(श-ष्णा)दित्य-
-र्याः काथी १५, ९, ९.

सारस्वत-श्रमुष्ण-
-थिमिः काथी ३, १, २, ४२;
-तीन् आपथी १०, २, १५;
१८, ६, ७; हिथी १३, १, २३;
३, २२; -तीनाम् आपथी १८,
७, १०; हिथी १३, २, ३४.

सारस्वत-श्रमुष्ण-
-लेषु वैथी १७, १६ : ४.

सारस्वत-शेष-
मुष्ण- -खान् वैथी १७, १० : ६.
सारस्वत-शैष्णव-शौ-
बौथी १६, १६ : ७; १२; काथी
३, २, ५, २२.

सारस्वत(त-आ)दि-

-दिभिः कुदे ७, ५९; -दीन्
वैथी १७, १० : ७; -दीनाम् वैथी
१७, १८ : ५.

सरस्वती(ती-दी)द्या-भारती-
-र्यः ऋथ २, १, १३.

सरस्वती-र्यद्वयी- -र्योः
काथी १०, १९, ४.

सरस्वती-देव(ता >)व-
-तान् माथी ५, १५, १४.

सरस्वती-देवता->व(त्य
>)थवा- -र्याः ऋथ १८, १.

सरस्वती-परिसर्पण- -गरथ
काथी १२, ६, २२.

सरस्वती-श्रमुष्णि- -तीनाम्
काथी ३, १, २, २८.

सरस्वती-न्य- -त्रेते माथी
२, ३, २, ३.

सरस्वती-विनशन- -ने
काथी २४, ५, ३०.

रिस-रस,सा- -सः आपथी १३,
३३, १५; -सम् आथ ३, २,
२; आथि २, ६, ४ : ५; -साः
वैथी १६, २२ : २; हिथी १, २,
६१; -सान् काथी २, ५, ६;
बाथी ३, २, ३, ३२.

२सरस-> १सरसाथन- , सारसेव-
पा.) पाथ ४, २, ८०^१.

३सरस-(-> २सरसी- पा.) पाथ ४,
१, ४१.

१सरसी-सरस्य- १सरस्-इ.
१सरस्यक- -आः आपथे २, १६, ७,
आथ २, ७ : १९; हिथे २, ७, २.

सरस्वती- २सरस्-इ.
स-रहस्य,स्या- -र्यम् बथ्य ३ :

१६; -स्यान् विथ १, ६२; ६३;
-र्याम् याथि १, १२.

स-राजन्- -जानः काथी २२, ५,
२९; ११, ८.

स-राति- -जयः काथी १५, २७, १.
स-रात्रि- पा ६, ३, ८५.

स-सराग्नितेयतेबसु अप ३६, ९, २.
स-राष्ट- -ष्टम् अप ४, ३, ३;
७०^१, १६, ९.

सरित्- पाठ १, १७, -रित् निम् १,
५ : ५; चाथ १६, ३५; -रितः
आपथी ५, ६, ३५; ११४, १७,
१^३; २८ : ४^१; १७, ७, १^१;
१८, १^१; बौथी; वैथी १९, ५ :
३५; २१, १५ : १२^१; हिथी
३, २, ५५^१; १२, २, २१^१;
११५, ५, १^३; ७, १२^१; -रितम्
अप ४३, ६, १; -रितान् अप
४२, १, ४; ६४, ९, ४; चाम ४० :
१; -रित्यु अप ४२, १, १;
-रित्मिः माथि १६, १०.

सरित् पवि- -त्रेः आथि २, ७, ५ :
१४.

सरित्-सर-नान्त- -न्तेषु अप ६८,
१, १७.

सरित्-सर-समुद्र- -द्राणाम् अप
६८, २, ३६.

सरित्-व(र >)रा- -रासु विथ
८५, ५४; ९९, १६.

सरित्- पाठो २, ३, ४७; पावाग ८,
३, १८^१, -रम् अप ४८, ६६^१;
-सरस्य आपथी ५, १, ७, १, ४;
१६, १२, ११^१, हिथी ११, ५, ७^१,
आथि २, ५, ३ : १८; बौथ ३,

a) क्य. > वस. । b) घृ २१२२ । द. । c) = ४९- । d) = १सरस्- । तु. पागम. ।
e) = ३स- । f) वैप १ द. । g) = सुन्दो-विशेष- । h) पाथे. वैप १ हरितः काठ ३५, १ टि. द. ।
i) पाथे. वैप १ सलिङ्गाः काठ ३५, ९ टि. द. । j) = इष्टका-विशेष- । k) उव. = २वर- । l) तु. पागम. ।
m) महु-नामन्- । n) पाथे. वैप १ सविन्दुथ मा १७, ८७ टि. द. ।

७, १५.
 सरिष्यत्- ✓घ द.
 सरीष्य- षत्- ✓घ्प्र द.
 स-रुक्म- षमम् काश्री ८, ११, २३;
 -रुमे काश्री १४, ५, १५.
 स^१ रघिर-> १२-पांसु-वर्ष-
 मिश्र-अशः अण् १, ४, १, ५, २.
 स-रूप, पा^१- पा ६, ३, ८५; -पयोः
 छु ५, ३; -पाणान् पा, पावा १,
 २, ६४; -पाणि वीथी २५, १३;
 १९; -पाय् शाण्डि २, ५, ३;
 २३; वीथि ३, ७, १७; -ये कप्रा
 १७, ४१; पा २, ३, २७.
 सारूप्य- षम् आपय २, २४,
 १; हिष २, ५, १६७; वीथि १,
 ४, १५.
 सरूपन्ता- षात् वा १४, २९; ३७.
 सरूपन्व- षात् पावा १, ३, ६४;
 -व्याप वीथी १३, ४२; ५१.
 सरूपन्व(ता>)ष्वा^१- षसायाः
 आण्ड १, १३, २; वाण्ड ५, ५, ७;
 वीथि १२, २; ३५, ४.
 सारूपन्व- षम् वैताथी
 १२, १४; वीथि ११, १०; १६,
 २०; ४६, ४; -स्वस्व वीथि
 ५०, १४; ५१, २; -स्वे वीथि
 ७, १; १२, १९; २०, २५; -स्वेन
 वीथि ३२, १३.
 स^१रैतस्- षसा आपथी २१, ९,
 १५; द्विथी १६, ४, १३; -वसा
 आपथि १, ११, ७.
 स^१रेफ- षः आण्ड १, २६; -फयोः
 माया १४, २४; -वी कप्रा १४,
 ३८.

सरोज- षत्. १सरस्- द.
 स^१-रोमन्- भाणम् वैथ २, ५, ६;
 ३, २३; १०.
 सरोज- षम्. १सरस्- द.
 स(स^१-ज्)र्क^१- कें छुम् १, १.
 सर्ग- ✓घ्प्र द.
 स(स^१-ज्)र्च^१- षेन गोण्ड ३, ९, ६.
 ✓सर्ज् पाषा. भ्वा. पर. अर्जने.
 स^१सर्जत् वाथी २, १, ३, ३०.
 सर्ज- वाण्ड १, ८०.
 स^१सर्गोक्त^१- षम् अण्ड ४८, ७५;
 निष १, १२; -काय^१ वीथी १०,
 ४५; २७; वीथी १२, ५; २१;
 द्विथी १२, २, ४; ७, १९; २६.
 सर्तवै षत्. ✓घ द.
 सर्तवै- का वा १४, ३०.
 सर्दिष्टदि^१- दिम् वीथी १५,
 २९; ३८१.
 सर्प^१, सर्पा^१- पाठमो २, २, २०७;
 पाण्ड ३, १, १३४; -र्वे वैताथी
 २२, १०१; थाण्ड २, १, १०१;
 आण्डि २, ५, २; ५; वीथि;
 वैज्यो १०; -र्वत् अण्ड ६८, २,
 ५४; ७१, ५, ५; निष ५०, ३४;
 अण्ड १२, ११; -र्वस्व माथि १,
 ७४; -र्पाः आथी १०, ७, ५०;
 वीथी; छु ८, २, २, ३४४; वैज्यो
 ३२; -र्वोपाः माण्ड ४, ८, २७;
 २८; -र्वोपा^१ आपथी १०, २६,
 १४१; वीथी ६, १५; १३१. १७,
 १८; ७; माथी; -र्वन् शीथी
 १६, ९, १४; आपथी २, १२,
 ४१; वीथी; छु ७, ५; १०, ३; -र्वे
 वीथि २२, २७; -र्वेन वैथि ७, ४

११; -र्वेन्यः षाण्डि ६,
 १२, ४; १६, २२, ४; २७, २३;
 वीथी.
 सर्पा^१- षम् छुम् २, १४३;
 -र्वे विष ७८, १४.
 सर्प^१-द(छ>)ष्टा- षाम् द्विथी १०,
 ३, ९.
 सर्प^१दष्ट-मृत- षानाम् वीथि २,
 ८, २.
 सर्प^१देवजन- षान् वाण्डि ६, ३३,
 ४१; वाथी १, ५, ३, ५०; द्विथी
 ३, ७, १९१; पाण्ड ३, ४, ८;
 -र्वेन्यः वीथी ६, २, २१; वाथी
 १, ५, २, ५०; माण्ड २, १, ९;
 १४; वीथि.
 सर्प^१देवता-> षत्-> ष्या-
 ष्वा अण्ड १, ४, २.
 सर्प^१नामन्- षाणि माथी ६, १, ७,
 ४; ८, ३; द्विथी ११, ७, २२.
 सर्प^१रिपीठिषा- षाम्यः माथी
 १, ६, १, ४८१.
 सर्प^१रिपुण्यजन- षान् वैताथी ७,
 २२; अण्ड ४५, २, ९.
 सर्प^१रलि- षिः वीथि ३, १०, १, ८;
 -ळिग् माण्ड २, १६, ३; ५; -ळी
 वीथि ३, ११, १.
 सर्प^१मातृ- षतः छु ६, ४.
 सर्प^१राज- षः गोण्ड ३, ७, १३१;
 -जस्य वाण्ड २, १०; १६, २०;
 ३०; २५.
 सर्प^१राज-> सर्पराज्ञी^१- षिषः
 आपथी ५, १२, १०; -षिषाः
 वीथी १४, २७; १०; २०, १९;
 ३; २४, १९; १; -ष्ठी भाषि

a) = षस-। b) = स-रूप- (द्व. वैथि १)। c) षस-। d) विष. (षवत्-। e) उप. षत्- +
 षसायाः षत् प्र.। f) वैथि १ द.। g) षाणि. वैथि १ सर्पाकारि टि. द.। h) नाम. (सर्पदेवत्य-। षत्-
 षाण्डि-नष्ट-। i) सर्पे इति जीवे.। j) परस्परं षाणि.। k) षाणि. वैथि १, १६ १०। द.। l) = षसा. षाथी
 २, ४, १२ (आण्ड)। BI. DO. सर्वेदे इति। m) षसा. द्विथी ३, ११ सर्पा^१ इति षाणि.।

६३, -श्री भाष्यो ५, १६, २,
 वीथी ३, १: १६, २४, १९: २,
 -श्रीनाम् भाष्यो १४, २२, १^०,
 २१, १०, ५^०, वीथी १४, २७
 १३^०, अथ ६ ७, -श्रीभि
 भाष्यो ५ १३, ८^०, १५, ६^०, २७,
 ९^०, १४, २१, १३^०, भाष्यो ५,
 १९, ६^०, वैथी २, १९, १५^०,
 २२, ८ २^०, -श्रीग्याम् भाष्यो
 ५, ११, ६^०, भाष्यो ५ ७, २^०,
 १८^०, ९, ४^०, वैथी १, ११ १०^०,
 १२ ८, १३ ६, -श्रीम् वैथी
 २१, ८ ४^०, -श्रीपु वीथी २०,
 १९-२, वैथी २१, ९ ६^०
 १ सार्पराज्ञ- > श्री^० -श्रिय
 हिथी ३ ४, ११^०, -श्री वाथी
 १, ४, २, २२^०, ३, ७, २२, ताम्र
 २, १०, १८९, श्रुदे २, ८४, ८,
 ८९, -श्री वाथी १०, १३, २६,
 १३, ११, ५, साम १, ६३१-
 ६३३, -श्रीनाम् हिथी १५, ५,
 ३५^०, १६, ४, २३^०, -श्रीभि
 वाथी १३, ११, २^०, वाथी ४, ९,
 १६, वाथी १, ५ १, ८, हिथी ३,
 ६, १०^०, १५ ५, ३४^०, -श्रीग्याम्
 हिथी ३, ४, १^०, १२^०, ३८^०,
 ६ ५, १३, -श्रीपु काथी २५,
 १३, ३१, गाथी ३, ८, ४^०, छाप
 १, ११ ६, -अप निम् ४, ९ ५
 २ सार्पराज्ञ- स शुभ १, १७१,

वाम ८: ६, -शम् लाथी १०,
 १०, १, छाप २, १५ ३५, ३, २
 ३२, -शे निम् ४, ९ २८, ११
 ९, -शेन छाप ३, २ ३०
 सर्पं यत् अर ५८^०, २, ७
 सर्प-याह-मण्डक-वध- श्चे सुभ
 ३८
 सर्पं विद्^१ - विद् भाथी १७, ७,
 ५, गाथी १६ २, १४
 सर्पं विद्या- या, -याम् वाथी १६,
 २, १५^०
 सर्प-वेद^० - वात् वीथ २, ५ २७
 सर्पं माध^० - श्चे विप ७१, ७८
 सर्पं तिरस्- न भाष्यो १६, १३,
 १०, २७, २२, वीथी, -रस
 वीथी २२, ६ २०
 १ सर्पं तीर्ष- > िर्ष- र्थी भाष्य
 १, १७, ३९^०
 २ सर्प-तीर्ष- र्थी वाप १४, ४२,
 चाम्र १६ २१^०
 सर्पं तीर्षन्- र्थी हिप १, ५ ७०^०
 सर्पं सत्र- अम् वाथी २४, ४, ४८,
 -अप वाथी १३, २३, ८, -शे
 निम् १०, १२ १, -शेन हिथी
 १८, ४, ६१^०
 िर्षं सद्- सदे हिप १, १६, १०^०
 सर्पं समिति- ती अप ७२, ३२
 सर्पं सामन्- मानि निम् १०,
 १२ १९, २०
 िर्षं सद्- सते भाप २, २९

१४^०
 सर्पं घृति- नी भाप २, २९ १३.
 सर्प-स्य- से दिप १, १६, १०
 सर्पाणां-सत्र- श्चेन भाष्यो २३,
 १४, ८^०
 सर्पाणात् अयन- नम् भाष्यो १२,
 ५, १, वीथी २६, २४: १७
 सर्पा(र्षं २भा)च^० - श्चे क्व ३, ६,
 १०
 सर्पा(र्षं)धे^० - श्चे वेज्यो ७
 सर्पा(र्षं-आ)हुति- -ति भाष्य
 २, ५, ३: ४६, वीप ३, ७, २८,
 -ती भाष्यो १७, २०, १४, १५,
 वीथी १०, ४९ ५, २५, ३० १६,
 वैथी १२, ६ १३३, हिथी १२,
 ६, २२, भाप २, १ १०.
 िर्षं(र्षं)तरजन- नान् भाष्यो
 ६, १२, ४, भाष्यो ६, १३, १०,
 वैताथी, -मेव्य कौम् ४२, १२
 २ सर्पा^० - र्थी अम २, १०, ७६, ९४,
 साम १, ६३१ ६३३
 सर्पण- सर्पव-, सर्पिद्- ✓ स्र् द.
 सर्पिस्^० - पाठ २, १०८, पाग ५ ४,
 १५३, कि २६, -र्षि भाथी
 २, ३, २, ६, १० वाथी, निप १,
 १२^०, वा ६, १७, -र्षिप
 िर्षाथी ७ ८, १^०, ८, १२, ५^०,
 वीथी १३, २५ २०^०, १८,
 ३२ १०, ११, गाथी, -र्षिप
 वाथी ७ १५ २२, १६, ६, काथी,

a) परस्परं पामि । b) परस्परं पामि । c) परस्परं पामि । d) परस्परं पामि । e) परस्परं पामि ।
 f) परस्परं पामि । g) स्तार्थे अण् प्र (तु हिथी भाष्यम्) । h) = सर्पराज्ञी- । i) पामि १ २५१६ ग
 द । j) श्चो इति मूले । k) विप (सुभ-) नाप (वाम्) । तेन स्त्रीय अण् प्र । l) उप < विद्
 (जाये) । m) पामि १ २२७१ ह्र । n) सर्वं इति मैथ, । o) इत उप = २शर- । p) = मत्स्य-विशेष- ।
 q) परस्परं पामि । r) वस । s) = [उपचारात्] म-न विशेषे । t) सर्वं इति पाठ १ वनि शोध (तु सत्र
 भाष्यो २३ १०८) । u) परस्परं पामि । v) परस्परं पामि । w) उप < सम्, ✓ इ । x) मत्स्ये क्त ।
 y) इत = मारुषो-नक्षत्र । z) = मत्स्य विशेषे (तु तै ५ ५, १०), आहुति विशेषे वा । a') = मत्स्य विशेष- ।
 b') वीप १ द । c') = १उदक । d') पामि वैप १ विश्वे वै २, १३, ५ कि द ।

-विधि वीथी १८, ३२: १२;
 माथी १, ५, १, २२; छ, ७,
 ३; वाथी; -विधि वीथी ११,
 ६,३; लाथी १०, ४, १०.
 सर्विस-शीर-गन्धोदक- -कै: अथ
 ४०, १, ६.
 सर्विस-आसुति- -ति: आपथी
 १६, १, ६; वीथी १०, १३:
 २२; माथी ६, १, ३, २८.
 सर्विस-आसेचन- -नम् वीथी २,
 १४: ४; ५, १०: १०x४; -ने
 वीथी १५, ४: ५.
 सर्विस-मी(व>)थी- -वी आथिग
 २, ३, ५: २४१.
 सर्विस-दधि-मध्व (घु-अ) क-
 -कानाम् अथ ३६, ६, १.
 सर्विस-धिमध्व-पत्र- -जागाम्
 अथ ३५, २, ५.
 सर्विस-धान- -नरय आथी २, ६,
 १; माथी २, ५, १२; वैथी.
 सर्विस-गध- पाग २, २, ३१; ४,
 १४; -धुनी आथ १, १५, १;
 कौथ १, १६, ४; शोध; -धुन्याम्
 शोध २, २, १; लाथी ३, ६, ८;
 धीम् ८६, २.
 सर्विस-मिध- -आ: अथा
 १२, ५.
 सर्विस-मिध,आ- -अम् आपथी
 १०, ६, ७; वीथी; -अथय वीथी
 २, १२: २८x४; आथिग; -आ:
 कौम् १०, १०; -श्रेण आथिग
 ३, ५, ७: १; १७, वीथि.

सर्विस-युक्त- -कम् संघ २३१.
 सर्विस-शेष- -यम् हिथी ३, ४, ७.
 सर्विस-मुष्टिका- पा, पाग ८, ३, ४८
 सर्विस-कुम्भ- -म्मा: वीथी १८,
 ४४: १२.
 सर्विस-पात्र- -आय वीथी १८, ४०:
 १५; -शै: वीथी १८, ४०:
 २३; २६.
 सर्विस-भय- -नत् आपथी २२, २,
 १५; माथी १, ४, १, ५; काधुथी;
 -मत्ता आथ ७, १५, २, ४;
 वीथ २, ६, २५; आपथ;
 -मति माथी १, ५, १, २४;
 -मन्ताम् हिथी १३, १, ३९;
 आथिग २, २, ५: २०१; हिथ
 २, ६, १४.
 सर्विस-वत्- -वान् वीथी १४, १८:
 २९.
 सर्विस-सूत्रे(अ-इ)घन- -प्रथो-
 तित- -नम् कौथ १, ६, २२.
 सर्विस-रजन- १थय- -द्र.
 ✓सर्वे पावा. भ्वा. पर. गत्वा.
 सर्वार्ण- (> णा-यत्- पा.) पाग
 ४, २, ६६.
 ✓सर्व्य पावा भ्वा. पर. द्विसावाम्.
 सर्व,वी- -धुत्रा २, ३९; वाठ १
 १५३; पाग १, १, २७; -वेथ अथ
 ४७, ३, १; -०वे आथिग १, ५,
 ५: ६; विध १, ५५१, -वे आथी
 ७, २, ७; शोध; याशि १, ८२१,
 -वेथ आथी १, ११, ६१x४; ११,
 ६, १२१; शोध; आपथी ५,

१६, १११; ७, १, १११; १४, १,
 १०१; १८, १११; २५, १३, २१;
 आथिग २, १, ४: १८१; वप
 ४८, ७५१; निघ १, १२१; वा
 २, २४१; -वेथ अथ शोध २,
 १०, २; शोध १, ३, ९; लाथी १,
 २, ५; -वेथ वीथी २१, ८:
 ३०; -वेत्तात् आथी २, २, ३१;
 शोध; आपथी ७, २१, ६१;
 वीथी ४, ७: २५१; माथी ७,
 १६, १३१; हिथी ४, ४, ४४१;
 शोध ४, ३, २१; लाथी २, २,
 १११; -वेत्तिन् शोध १८,
 २३, ७; शोध २४, ४, २६;
 काठथी; -वेत्तिन् शोध १२, १५,
 १; आपथी २०, ८, ९; वीथी;
 माथ १, १, २४०; वाठ १२,
 १७; -वेत्स्य शोध ८, ९, ११;
 १४, २, ११; १५, १२,
 १६; वाथी; शोध ३, ११, ५१;
 वा १, १, ५५x४; -वेत्सा
 आपथ १३, १०; तिष्ठ ४, ३०;
 -वेत्स्याम् माथी १२, ६, ७;
 -वा आपथी १४, ३, १२; १७,
 २१, ८१; काथीसं; ऋथ ४,
 २९१; १२, ५(५, ७); -वी
 आथी १, ३, १८; ५, ३०; २,
 १०, १८१x४; शोध; काथी
 १३, ३, २६१; आथ २, ३,
 ३१; कौथ ४, ४, ११; शोध
 ४, १८, ११; पाग १, ५, ११;
 २, १४, ४१; माथ २, ७, ११;

a) वेप १ द. 1 b) उप. अथिगले कृत् । c) ड. पापम. । d) मुष्टिका: पाठः । e) = विष्णु- ।
 f) पथि. घृ १८०१ C द. 1 g) ड. आन. । h) पाथे. वै १ विद्यमम् ऋ १, १३, ३ टि. द. । i) पथि. वैप १,
 १४११ B द. 1 j) कथ. वैथी १५, ३८: ५ सर्वेता: इति पथि. । k) पथि. वैप १, ६९० k द. 1 l) सत्र. सर्वं
 परि<>सर्वपरि इति पथि. । m) सपा. आयमं २, १३, १ दीर्घम् इति पथि. । n) = १७६१- । o) पथि. वैप १
 विष्णुस्य शी ७, ११७, २ टि. द. 1 p) पथि. घृ १८०१ I द. 1 q) पथि. घृ २२५१ B द. 1 r) पथि.
 घृ १०४ C द. 1 s) पथि. घृ ३२८ G द. 1 t) पथि. घृ ११९२ r द. 1 u) पथि. वैप १, १६१४ C द. 1

या ३, ४^१, पात्र १, ४, १०१^०,
 -वर्णि आश्री ७, १, १६, १२,
 १३, ८, ३, २३, शाश्री, माश्री
 १, ४, ३, १^०, वाश्री १, १, ४,
 १^१, -वाश्र पात्रा ५, १, १०,
 -वाश्र आश्री २, १, १०^१. ३,
 ११, १^१, १२, २१×४, शाश्री
 २, १३, ६×४, ८, १५, ११^१,
 कौश्र ७४, २०^१, -वर्णि
 वाश्री ७ ७, ११, १२, ४, १५×४,
 आपश्री, वीश्र ३, १५, ५^१, शाश्र
 ३, १३, ५^१, -वर्ण्य शाश्री ३,
 २०, २^१, १४, ५०, २०, आपश्री,
 दिश्र १, ६, ५^१, -वाश्र वाश्री
 १, १०, ८, शाश्री ६, ७, ७, १४,
 ५१, १^१, आपश्री, -वर्ण्य-वर्ण्य
 वीश्री २०, १९ १४, -वर्ण्यसाम्
 आश्री ६, ४, ४, शाश्री १, १२,
 १०×४, वाश्री, आपस १, १६,
 ५^१, -वाश्र शाश्री १, १, २९,
 २, ३, १५×४, वाश्री, दिश्री
 ११, ६, ६^१, -वै आश्री १, १३,
 १०, २, १०, १८^१×४ शाश्री,
 वशि २, ११^१ -वै आश्री १२, ४,
 २४, शाश्री १६, २, ३५, ८, ४×४,
 आपश्री, -वैण्ड-वैण वीश्री २०,
 ४ २०, १० १३, -वैणि
 आपश्री १३, १८, ९, वैश्री १६,
 २९ १३, -वैण्य आश्री २,
 ६ १७, ६, ६, १, काश्री, माश्र
 १, २९, ५^१ वीश्र ५६ १३^१,

-वैपाश्र आश्री १, ३, ५, ३९, २,
 ९, ७×४, शाश्री, दिश्री १६,
 १, २९^१, -वैण्य आश्री २, १६,
 २६, ३, २, १६×४, शाश्री, -वै
 आश्री २, ६, ८, काश्री, वाश्री ९,
 १४, १^१×४, वीश्री
 सर्व^०- पा ५ १, १०
 सारं-गामिन्^०- मी आपस
 १, २३, ६, दिश्र १, ६, १४
 सारं विकीर्ण- र्शं निर
 ६, २ ८
 सारं सुरमि^०- मि दिशि
 १७ १९, -भिणा आपश्र १२,
 ८, माश्र २, २० ३
 सारं सुरमि पिष्ट- षम्
 भाश्र २, १८ २^०
 सारं-सद- पा ३, २, ४१
 सारं-कर्वु- वरिम् वीशि ८
 सारं कर्मन्- र्शं वैश्र ४, १४^१
 १८, मीश्र ५ २, १, १०, १, १,
 १२, ३, ९, -मैण कश्र १, ३,
 ५, -मैणाश्र आश्री १, १२, ३,
 शाश्री ४ ६, १०, अप, -मैसु
 वैश्री १, १४ ३, शाश्र १, ३,
 ७, वप्र १, ८, १९, अप, -मैणि
 आश्री २, ६, ३, दिश्री ३, ७,
 १०, आश्रिय
 सर्वकर्म प्रत्यय- य मीश्र २, ४,
 ३२
 सर्वकर्म पठ- षम् आश्रियो १४,
 ७

सर्वकर्म वहिष्कार्य- र्शं वैश्र ६,
 ११:७, वैश्र ३, १५, ११
 सर्वकर्म-वहिष्कार्य- व वैश्र ३,
 १४, ७
 सर्वकर्म वर्जित- -त विष
 ५१, १.
 सर्वकर्म-सम्पदि- -दि वैश्र १,
 ७:५
 सर्वकर्मा(र्म-अ)र्ध-सिद्धि-
 -व्ये अप ३४, १, ५
 सर्वकर्मा(र्म अ)र्ध- -ई आश्रिय
 २, ४, ९ २६^१
 सर्वकर्मान- पा ५, २, ७
 रसरं कर्मन्^०- र्शं कौश्र ४४, १८.
 रसरं-कलि-कल्प^०- पम् अप
 ३६, १, ६, ११
 सर्वं रूप- -व्ये वीश्री २०, २:
 २, २४, ११ १३
 सर्व-वटनप-नाशन- -नम् विष
 २३, ६०
 सर्व-कल्प-नाश्रि(व>)मी- नी
 शश्र ४४, २, -मीश्र अप ६३, ५, ६^१,
 १ सर्व-काम- मम् वीशि २, ९ ५^१
 ११, २^१, -मा अप २२, ५, २,
 -माश्र आश्रिय ३, ३, १ २४^१,
 अप ३३, १, ११, ७०, ४, ८,
 विष ७८, ४९, -माताम् विष
 ९२, १५ -साय वाश्री ५, १,
 ५ २२, ६९, आश्रयो २, ९, -मै
 आश्रिय ३, ११, २ ९^१, अप
 १, ४९, ८

a) पामे वैश्र १ दिश्र वी १ १७, १ टि द । b) वृ पाम । c) पामे वैश्र १, १५७६ १ द ।
 d) पामे वैश्र २ ३४ सर्वम् ममा २, १, १४ टि द । e) पामे वैश्र १ विष्वाश्र मा ३८, १० टि द । f) सर्वाद्
 इति पठ ३ मनि शोध । g) आश्री २, ९ १०:१ । h) पामे वृ १३८ ० द । i) परस्पर पामे । j) सपा
 ष १०, १५९, ५ अग्न्यासाम् इति पामे । k) पामे वृ १९७ ० द । l) = सपा माश्र ४, ६ ८, १५ । काश्री १२ २, ८
 सद् इति पामे । m) पामे वैश्र १ सुर्वेण मा २६, १९ टि द । n) स्वार्थं तस्मै दिश्रीवाश्रं यं सन् प्र ।
 o) वस । p) सप्र वीश्री १७ ३९ ३ प्रम्
 सर्वसु इति पामे । q) कप > पस । r) परस्पर पामे ।

सर्वकाम^०- म आषाढी
 १४, १४, १३
 सर्वकामिक^०- इम् आषाढी
 ११, २, ४, वीथ ३, ८, ३८
 सर्वकामिकी- की शाशी
 ३, ४, १०, वीथी २३, १ ३६
 सर्वकाम्य- न्यव मोक्ष ४,
 ३, २३
 सर्वकाम द- दम् अक्षा ५ १
 सर्वकाम प्र(द >) द- द्वा शव
 ४४१.
 सर्वकाम समृद्ध- द्वा, वाय २९,
 ८
 सर्वकामा(म-अ)नपराध- धाव
 शाशी ९, ४, २०
 सर्वकामा(म-अ)भय- वाय अष
 १, ४, ४, ५, अशा ११, ४, ५
 सर्वकामा(म-अ)ध- धम् वीथी
 १, ४ ५
 सर्वकामार्थ सिद्धि- द्वाये
 अष ३३, ३, १
 १ सर्वकामिन्- मिनम् शाशी
 १६, १, १५^०, १०, १८, -मी कीर्
 ५ ७०
 सर्वकामीय- वम् विष ७७, १,
 २ सर्वकाम^०- म आषाढी ३, १४,
 ९ १०, २, १, वीथी -मम्
 वीथ २, ५, ५, -मस्य शाशी
 १४ ५, ३, शाशी, -मा आषाढी
 ११, ७, १, -माव वीथ ४५,
 १८१, -मी हिथी १, १, ६६
 २ सर्वकामिन्- मिलात् माष्ट २
 १३, ६१, -मी आषाढ २ ४,
 ११ २५
 सर्वकारण- मम् अक्ष १, ३३,

-णाय वैव ३, १०, ४
 सर्व कारिन्- री माष्ट १, १, २,
 वाष्ट ६, ३
 सर्व कार- रुणम् अष १, ४४, १
 सर्व कार्य- याणि अष ६७ ८, ७,
 श्वे ७, १२८, आषाढी ७, ४,
 -ये अष २६ ३, २, -येषु विष
 ३ ७५
 सर्वकार्या(र्व-अ)र्थ-साधन- न
 आषाढी २, ९
 सर्वकार्या(र्व-अ)स्वतन्त्र- न्त्र
 वाष्ट १, १०.
 सर्व काल- लम् अष ४, ६, ६, ६९,
 ७, ५ मीष्ट १२, ३, १९
 सर्वकाल- लम् आष्ट १,
 ४, २
 सर्वकालिक- कम् आषाढ
 १, ११, ३०, ३७, हिथ १, ३, ८०,
 ८८
 सर्वकाल स्व- व्वाष्ट मीष्ट ५,
 ४, १६
 सर्व किविषय-माशि(त् >)नी-नी
 शव ४५४
 सर्व कृण्ड- ण्डेषु अष २५, १, १२
 सर्व कृष्ण- ष्टस्य अष ३३, ४, २
 १ सर्वकृत्- कृत् अष १, ४०, ५,
 अशा १०, ५
 सर्व कृति- विम् निम् ४, ९ २०
 सर्व कृत्य- तेषु आषाढ २, १५,
 ११, हिथ २, ३ ४५
 सर्वकृष्ण- ण्ण शाशी ५, २, १०,
 २९
 सर्वकेश- (>सर्वकेश्य- पा)
 पाग ४, १, १२
 सर्व-वेद्य इन्द्रिय-लोम-वपन-

-म काशी १३, ४, ५, २२, ६,
 १३
 सर्वकृत- तुभ्य. हिथी १५ ६, ७,
 -तुपु शाशी ६, ४ १८, लाशी २,
 १२, १८, -तुम् अषाढ ३, ५ ८,
 -तुनाम् आषाढी २२, १, २, २४,
 १, २२, हिथी १७, १, १
 सर्वकृतुक- वम् निम् ६,
 २ ३२
 सर्वकृतुकल- लम् वीथ ३, ५,
 ८
 सर्वकृतु-याजिन्- जिनाम् वीथ
 २, ७, १४.
 सर्वकृतु(तु अ)धिकार- १
 शाशी १, १, १, लाशी १, १, १
 सर्व क्षय-ज- रम् अष ७२ ५ १
 सर्व धाम- भे अषाढ ४, १
 सर्व क्षेत्र- तेषु विष ९६, १८
 सर्व स्वाह- तम् अष १, ८, १३
 सर्व ग- पा ३, २, ४८, -मा अष
 १ ४६, १, विष ९८, ३१, -मम्
 विष ९७, ३
 १ सर्वगण- ण्ण वीथी १७, १०
 १७, -ण काशी २५, १२, ५,
 शाशी ३, ६, १५, वीथी १४
 १३, -णम् शाशी ४, १३, १,
 आषाढी ६, ११, ५, वीथी, या
 ६, ३६, ६, -णस्य काशी २५,
 १२, ५ वीथी १७, १० १७,
 शाशी ३, ६, १५, वीथी १४
 १३, -णा^० आषाढी ३, २, ११,
 भाषी ३, २, ४, हिथी ६ ३, ३,
 -णाय कीर् ४५ १६
 सर्वगणा(वा आ)दि- दि
 वीथीमा १४४

a) तर्कद्वितीय प्र । b) तदस्यप्रभोजनमित्यर्थे दम् प्र । c) विष (सर्वथा यदासागतेषां प्रा-
 मय- [गोत्री] श्रोतन) । मत्तये हिनि प्र । d) वन । e) वा विनि । f) शरावणम् यत्तत् इति
 वीथी प्रम् । g) वैप १२ । h) = यथा तैसा ३, ७, ५, ७ । आषाढी १, ७, ८ सर्वगण इति पाठे ।

सर्वगणसुसत्तापसाधुसपुट ५।४
 ३,४,१८.
 सर्व गण,सा- -तात् शप ११६ :
 २७, -ताम् बुदे ६, १११
 सर्व गन्ध- -न्यात् बंध ६७ ११,
 अण २,१,४, १८, १५, १, २०,
 ३, ४, अशा १३, ४, -धै
 आनिष्ट २,४, ६ ९, २४, काष्ट
 २०, २, २१, १०, ३६, १, अ
 सर्वगन्ध सर्वरस सर्वोपधि-
 -धी. माष्ट २६,४, १४, २५
 सर्व-गन्ध रस- -धै विध ८७,५
 सर्व गर्भ- -भाणाम् शैष्ट ६, ३ ११
 सर्व-नामिन्-> ०मि-व- -न्यात्
 मीस् ३, २, ३८, ९, ४, ११, १०,
 ६, ७३.
 १सर्व गुण- -ण श्रप ५९, १, १८
 सर्वगुण पूतिह- -व श्रप ५०,
 ६, २
 सर्वगुणो(श-उ)वेत- -तै श्रप
 २७, १, १
 २सर्व गुण- -ज काश्री १, ३, २९.
 सर्व ग्रह- हाणाम् आपथी १४, २७,
 ५ वैश्री १५ १५ ९, हिथी ८,
 ४, ११, ५, १२, १५, ७, ४
 सर्व-ग्रहण- -णम् पावा ३, ३, २०.
 सर्व कप- पा ३, २, ४२
 सर्व-यतुर्विश- -शम् बौश्री २६
 १४ १०, ११
 सर्व-चमस- -साणाम् आपथी १२
 २१, १६, वैश्री १५, २७ २०,
 हिथी ८७, ४
 सर्व-चरम्- -णानाम् वा १, १७

सर्व-चर्मन्-> ०चर्मीण- ,सर्वच
 पा ५, २, ५
 सर्व-चिकीर्षा- -र्षा मीस् ३, ७, १
 सर्व-चिति- -रिपु वाथी २, १, ८,
 १८.
 सर्वचितिक,का- -कम् माथी
 ६, ३, ३, १८, -का वाथी २,
 २, १, ६, १५, १८
 सर्वचितिकी- -न्य. ० माथी
 ६, २, १, ७, २१, २७
 सर्व-च्छन्दस्- -न्द. उनिस् ६
 ३३, -न्दसाय् निस् ४, २ ३३,
 -न्द सु उनिस् २ १, -न्दस्सु
 यौष ३, १०, ११, यौष १९,
 १३, -न्दसि संभ ११६ ३३
 सर्वच्छन्द-सहि(त)>ण- वा
 वाथ २२, ९.
 सर्वच्छन्दस्य,स्या- -स्या. निष्
 ४, २ ३२, ८, ७ ५, -स्यानि
 निस् ७, ५ १९
 सर्व-ज- -वात् आपथी १३ १८,
 ११.
 सर्व जगत्-पति- ति श्रप ६६
 १, ३
 सर्व-जगद्-शोच- -जम् वैध १, ९,
 १५
 सर्व ज(टा)>ट- -ट माष्ट २, २,
 ६, वाष्ट ६, २६, ७ २१
 सर्व-जगत्- -वाग ४ ४, १९
 सर्वजगिक- पावा ५, १, ९
 सर्वजनीद- पा ४, ४, १९
 सर्वजन विध- -व श्रप १२ १,
 १

सर्वजनीन- पावा ५, १, ९
 सर्व जनपद- -वैपु आपथ १, २०,
 ८, २, २९, १४, विध १, ६,
 २१
 सर्व-जन्व- -न्यम् या ११, १०.
 सर्व-जय- -नम् विध ९२, २५
 सर्व-जलज-सासा(स-घ)सान-
 ने विध ५१, २१
 सर्व जिच्- -निच् वाथी २२, १,
 ४४, आपथी १६, ३०, ११,
 २२, ३३, ४, वैथी १८, १०
 ४१, हिथी ११, ८, ४१, १७,
 ८, ३४, -जितम् शाथी १४,
 ४८, १, -जिता आपथी २२,
 १, १६, हिथी १७, १, १८,
 -जिति वैताथी ३९, १८
 सर्वजिच्-ममिजिच् विस्वजिच्-
 -जिताय काथी २४, ५, ४
 सर्वजिच् दी(पा)>श- -शा
 काथी २३, ४, १९, -शाणि
 काथी २४, ३, ३१, -श्री काथी
 २२, १०, ३३
 सर्वजिच् हादवाद्- -व श्रप २
 १६ १७
 सर्वजिच्-पनमिच्- -जितो
 शाथी १५, ११, ११
 सर्व जीविन्- विन आपथी २ ६,
 २३
 सर्व ज- -श अण १, ४०, ५१, ४४,
 अशा १०, ५१, -शम् श्रप ६९,
 १ १, रिप ९७, २, वैसि ८
 १सर्व ज्ञान- -नानि श्र ४१, ९, ५
 २सर्व ज्ञान- -द वा १४, ५

a) यन्मेभिजिच् (= वाष्ट २ १७, ९) इति, लस्युपपुट, सर्वगण-सस (इन्द्र), य, साधु संपुट-> न इति मत्रपूर्वार्ध शोच (वैदु अथराम हाण > वृत् इति, MO Old सर्वगण, ससाय [प्र३] साधु-सपुट- [पस] > पूट इति पदत्रयमिति । उच्यतेऽपि १शुहाण > मृहा(), न इति शोच । b) पाठे वृ १७८५ b इ । c) वस । d) लण = शाखा- । e) परस्पर पाठे । f) वल । g) = विस्व ल्य- (वृ वैप १) । h) = एकाह विशेष- ।

सर्व-ज्यानि- -नि अग्र १२, ५,
 (३)†, -निम् आश्री २, ८, २,
 गाधूश्री ३, ७५ ११, ७९
 १९, लाश्री १०, १७, ७, अग्र
 ११, २(२)†, -न्याम् काश्री
 २७, ६, १९
 सर्व-ज्योतिष्- -ति काश्री २२,
 २, ८, आपश्री २२ २, ५, हिथी
 १७, १, २३
 सर्व-वन्द-विमर्शित- -तम् विध
 १७, १७
 सर्व-स्तु- -न आश्री १, ७,
 ८, -स्तु बौध ७ २, ११,
 -स्तुम् शीघ्र ५, ३, ३०, आश्रिय
 ३, ६, १ २८, बौधि १, ९ ५
 सर्व-वस() आश्री १, १९, ३३,
 नाश्री, आपश २, २२ ९^०, आश्र
 २, ४, १४^०, पाश्र ३ ४, १८^०,
 आपश १, १९, ८^०, विध १, ५,
 ११^०, पाशा ५, ४, ४४^०
 सर्व-प्रकल्प- -पानि बौध्री
 १५ १ ५
 सर्व-सर्व-निन्द्य-तन्नि-
 किम् विध १७, ४
 सर्व-सो(स-श)कि-सिरो-मुक्-
 -न्यम् विध १७, ४
 सर्व-तो-दिना- -शम् अग्र ५०,
 ७, २
 सर्व-तो-दाश- -त्म् हिथी ७, १,
 ३०
 सर्व-तो-षा(रा>)श- -नम् या
 १३ ८

सर्व-तो-पुर- -नम् बौध १,
 १०, ७, -रा बौध्री १७, २० १
 सर्व-तो-मद्र- -द्रम् गाधूश्री ३,
 ३८ १, ३, ५, ६, अग्र १, ४४, ७
 सर्व-तो-भय- -पाश्र माश्र ३,
 १९, १
 सर्व-तो-माव- -यम् या १, ३
 सर्व-तो-मुक्- -स्र बौध्री २६,
 ३३ १९^०, -सम् आपश्री १७,
 १०, २, ४, ७, बौध्री १०, ३५
 २६×५, २३, १९ १^०, -स्रस्व
 बौध्री २२, ७ १०, ८ ३५,
 -ना साश्र ६, ३ ३, -साश्र
 माश्र २, १४, २८, -दे बौध्री २३,
 १९ २^०, -खिन आपश्री २२,
 १९, १२, बौध्री १८, ४९, ४, ६
 सर्व-तो-मुक्षी- -ती कौश्र ३,
 १५, ३, साश्र ३, १२, ५, अप
 ७०^०, २, ३
 सर्व-तो-विज(य>)पा- -याम्
 अग्र ६, १, १४
 सर्व-ताति- -पाश्र, ४, १४२, -तये
 श्रदा ८ ३१, -तये आश्री ७,
 १०, १^०, शौथी ५ १४, ८^०,
 या ११, २४^०, -तिम् उश्र ७,
 १८^०
 सर्व-तीक्ष्ण- -स्र माशि ८ २
 सर्व-तीर्थ- -मानाम् विध ३५ ६,
 -धनि अग्र ११६ १३, -थेपु
 अग्र ४०, ४, ५, -थे वैश्र १, २ ९
 सर्व-तीर्थ- -स्रस्व वैश्र १, ६ ३
 सर्व-तीर्थो(ध-उ)परस्व- -नम्

नाश्र २२, ११
 सर्व-तुर्व-विनाद- -देन अग्र ५, ४, ३,
 सर्व-तृण- -गानि गोश्र १, ५, १९,
 वैश्र १, १:१२, -गेभ्य बौध्री
 २८, १३ १२
 सर्व-त्याग- -नम् वैश्र ३, ६, ५
 सर्व-त्र आश्री १, १, १९×५, आश्री,
 पा ७, १, १८, ३, २२×५
 सर्व-त्रिक- -कम् आपश्री
 २, १२, ९, १८, ३, १५, १९, ६,
 बौध्री २७, १४ २८, माश्री,
 बौध्र १, ३, १८, भीश्र ७, १, ४
 सर्व-त्रय- -पाशा ३, २ ४८
 सर्व-त्रिष्टुम्->सर्व-वैष्टुम्- -म
 बौध्री २७, ३७ ११, १३, १८
 सर्व-त्व- -त्वम् भीश्र १, ९, १६,
 १०, २, १८
 सर्व-था श्र ३०७, विध ११, ८,
 भीश्र ७, २२, ह्रदेउ, १४०, श्रदा
 सर्व-द्विष्ट- -द्विष्टु अग्र ५५, २, ३
 सर्व-द्वय- -पाश्र ३, १, १३४
 सर्व-द्विष्टि(वि)र्विष्टो- -मानाम्
 माश्र १, ४ १२, हिश्र १, ३,
 १, -मानाम् आश्रिय १, १,
 १ ५५, ६, ३ २६, बौध्र ३,
 ३, २९, -मैपु आश्र ३, २ १५
 सर्व-दर्शन- -नम् भीश्र ६ २, २
 सर्व-दा आपश्री ६, २७, ३^०,
 हिथी ६, ७, ८^०, कौश्र, पाश्र
 २७, ३^०, वैश्रिय १, १४, ४^०,
 १९ १^०, कौश्र ५६, १७^०,
 पा ५ ३, १५

a) = पुत्राद इति । b) वर । c) पाशे पृ २६०० इ । d) सपा सर्वत <> सर्वदा
 शत पाशे । e) सपा माश्र २, ८, ९ अश्रु इति पाशे । f) सपा सर्वत <> सर्वदा इति पाशे । g) पृ
 ७२४ इ । h) इ पाशम । i) वर > वर । j) वर । k) समासान्त भक्ष । l) नाप. (लोक-
 भाषण) । म) वैश्र १ इ । n) पाशे वैश्र १ श्रावणि पाठ ३७, ९ इ । o) तत्सर्वधीये जनि
 उभयपद इति । p) माश्र हिश्र पाठ । q) परस्पर पाशे । r) पाशे वैश्र २, ३५ सर्वत
 ममा २, ६, ४ इ ।

सर्वदान- नाम् मीम् ३, ५, ५
 सर्वदाना(न-अ)धिक्- कम्
 विध ९२, १.
 सर्वदाग दोम पाक- निषेध-
 -धः मीत् १०, ८, १२.
 सर्वदाय- यान् विध ३, ८४.
 सर्वदाह- ते आपथी ९, १५, ८;
 मीत् ६, ४, १८.
 सर्वदिव्य- न्वानि विध ९, २३
 सर्वदिग्- दिक्षु अण २१, ५, ४,
 ६८, ५, २१, ११; -दिश हिथी
 १७, १, ३४.
 सर्वदिकृ-त्वा^१ अण ७०^१, ३, २.
 सर्वदु(ष्ट>)ष्टा- ष्टा आन्वो
 १३, ८.
 सर्वदक-त्व- न्वम् वृद्धे ३, १३४.
 सर्वदेर- यान् वैष्ट १, १३, ३,
 -धानाम् विध १, ५७, ८९, २,
 -वेभ्य- वैष्ट १, १५ १४^१
 सर्वदेव-म(य>)षी- चीम्
 अञ ७, ३०.
 सर्वदेवा(व-अ)वेता- ता वैष्ट ७,
 १०-१
 सर्वदेव जन- नान् आशिष्ट २,
 ६, ३-४४, वीथ २, ५, २७^०,
 -नेभ्य आशी २, ४, १२^०, माष्ट
 ३, १४ : १५
 सर्वदेवता- ता वैष्टी २०, ३०
 १५, वैष्ट ३, २१ : ११, अण
 ७५७ १४, १६, -ताभ्य- माष्ट
 ३, १३ ५
 सर्वदेवता-सक- न्वम् आशिष्ट
 २, ४, १२ ३
 सर्वदेव-व-रपा- त्य अञ १,
 २, ११, -त्ये आपथी १९, २,
 ११, २०, ४

सर्वदेव-विष्ट- ईवत्य- न्वम् वैष्ट
 २, १-३.
 सर्वदेवा-> इय- इयम् शशा ९,
 ४१.
 सर्वदेहिन्- हितान् विध १३, ६.
 सर्वदोष-विनाशन- नम् अण ७,
 ६, ५, ६९ ५, ४.
 सर्वदोष-विचर्जित, ता- ता कौशि
 ५२, -ताः अण २६, ४, ५
 सर्वदोषो(प-उ)पपाठा(त-अ)
 धे- धेम् वीथ ७, १, ३०
 सर्वद्रव्य- न्वे अण ७०, ४, १०
 सर्वद्रव्य परिध्याग- नान् अण
 २, ६, ४, सुवप ८६ : १२.
 सर्वधन घाम्य- सपूर्ण- णम्
 वैष्ट १, ७-६.
 सर्वधन(न-शा)द्य (दि-अ)भं-
 -धेम् पादा २, १, ६९.
 सर्वधना(न-अ)पहार- रे वाथ
 १६, ३६
 सर्वधर्म- मं मीत् १, ३, १६,
 ३, १, ७, -मर्णाम् हिष्ट २, ५,
 १९३, -मैभ्य गीथ १३, ३१,
 -मैषु आपथ १, ८, २४, हिष्ट
 १, २, ११२
 सर्वधर्मा(र्म-अ)नुष्ठान- नानि
 हिष्ट २, ५, १९३
 सर्वधा-> धा वन्- नम्
 आपथी ६, २३, १^१
 सर्वधातु- तुभ्य- पावा ३, १, १३४
 सर्वधातुक- कम् पा १, २, ४,
 ३, ४, ११३, पावा १, ४, १, ३,
 १, ७८, -के अण २, ४, १, पा
 ३, १, ६७, ६, ४, ८७४४, पावा
 १, १, ६७, २, ४, ३५, ३, १,
 ३१, ६, ४, ६४

सर्वधातुक^० पावा १, २, १
 सर्वधातुक- न्वम् पा ६,
 १, १८६, -के पावा ७, ३,
 १११.
 सर्वधातुका(क-अ)नुदा-
 तात्व- न्वे पावा १, १, ६७.
 सर्वधातुका(रु-अ)
 नुदात्त-प्रतिषेध- धात् पावा
 ६, १, १५७.
 सर्वधातुक ग्रहण- न्वम्
 पावा ७, ३, १५
 सर्वधातुक-व- न्वत् पावा
 ६, ४, ५२, ७, ३, ८५
 सर्वधातुरुच्यत- न्वम्
 पावा ३, १, १०.
 सर्वधातुका(क-अ)दिश-
 -ने पावा ३, १, ८३
 सर्वधातुका(क-अ)धे- धी
 पावा ३, १, ६७
 सर्वधातुका(रु-अ)धेधातुक-
 -क्यो पा ७ ३, ८४.
 सर्वधाम्य- न्वानाम् अण ५३,
 ४, ५
 सर्वधुर-> धीण- वा ७, ४, ७८
 सर्वधृवा(ध-अ)धे- धे विध
 ७९ ९
 सर्वधृव-दोम- मेषु अण २७,
 १, २
 सर्वनाम्- न्व- नाना १, ७, ५, २२,
 अण २, १, २८, पाण ८, ४, ३३^१,
 -मनि वृद्धे २, १७, -मानम्
 वा ६, ३६, -माणि पा १, १, २७,
 -मन अण ५, १, ७, पा २, ३,
 २७४४, पावा, -मना आपथ १,
 १४, २३, हिष्ट १, ४, ५२, वा ७,
 २^३, शीथ ७, १९

a) धात् प्र उख (पा ५, ३, २२) । b) सर्व इति वीथ । c) पावे वृ २५१६ । d) पव.
 वा क्य वा । e) वैप १६ । f) पारिभाषिक-संज्ञा- । g) विप, नाप । h) वृ पाणम ।

सर्वनाम-र- -ये पावा १, १,
२७.
सर्वनाम-निर्वृत्त- -तो पावा ४,
१,१२.
सर्वनाम-संख्या- -वयसोः पावा
२,३,३५.
सर्वनाम-संज्ञा- -ज्ञापाम् पावा
१,१,१७; ८,४,३.
सर्वनाम-स्थान- -न्म् वा १,
१, ४३; पावा १, १, ४३; -ने
पा ६,१,१५५; ४, ८४४; पावा
१,१,५३; १,१,५२; ३,१,५०.
सर्वनाम-स्थान- -नयोः वा
७,३,११०.
सर्वनाम-स्थान-प्रवरण- -ने
पावा ६,४,१३.
सर्वनाम-स्थान-प्रवरण-प्रतिव-
-निवि- पावा ४,१,१.
सर्वनाम-प्रवरण-प्रवरण- -न्नेषु
पावा ८,१,१.
सर्वनाम-प्रवरण-प्रवरण- -निवि-
-नी पावा १,१,७१.
सर्वनाम-प्रवरण-प्रवरण-संज्ञा-
-ज्ञापाम् पावा १,१,७२.
सर्व-नाम- -म्. वाप १, ३८; -ने
वापी २५,४,११; वापीर्न ३२-
१०; वीत् ६,४,१७.
सर्व-नाम- -म्. वापि २,७१.
सर्व-नाम- -म्. वापी १५,१०,२.
सर्व-नाम- -मांस(०-४)संज्ञ- -ने
विष ५१,३१.
सर्व-नाम- -म्. वापि ५, १०;
-ने: वीष २,१,४१.
सर्व-नाम- -नी वा ५,१८.
सर्व-नाम- -म्. वापि-> वीष- -ने: वीष->

धीन- वा ५,२,७.
सर्व-नाम-संज्ञा- -ज्ञापाम् (०-४)
सर्व-नाम- -म्. वापि ८,१,४.
सर्व-नाम-संज्ञा- -नाय विष
३,११; वा ३, १३.
सर्व-नाम- -मांस(०-४)संज्ञ- -ने
सर्व-परिचर्य- -न्म्. भाषी ११,
१३,१०.
सर्व-परिचर्य- -नाय वीष ३, ४,
१७.
सर्व-परिचर्य- -म्. वीष २,१०:
१५.
सर्व-परिचर्य- -ज्ञापाम् द्विषी ४, ५,
६१; द्विषी १३, २, १५; १८;
त्रिषी ५,२, १७; ४, ३; वीत्
८,७:६; १४.
सर्व-परिचर्य- -ने: वीष ५,
१२, २; १३, ८४४; वीषी २,
१६: ११; द्विषी ३, ३, ४१;
-त्रिषि वीषी १३,१०,२२.
सर्व-नाम- -म्. वीष- -ने: वीष-
१३७,४१.
सर्व-नाम- -नेषु वीष ४, ३, १,
-ने: वाप २७,११; वीष ४, १,
१४.
सर्व-नाम- -म्. वीष- वा ५, २, ७.
सर्व-नाम- -म्. वीषी ४,२१,१७.
सर्व-नाम- -म्. द्विषी ६,४,१०१;
-त्रिषाम् वीषि २१,३,१०१; वीष
३,६, ४; वीष ४८,१७; -त्रिषि
वाप २२, २१; वीष ४८, १५;
५५,८; -त्रिषि: वीष ३,१०, ३५,
४,१,४, वीषि- -नेषु वाप २६,
१५ -ने: वीष ४, २, १, ८,
१६; वीष ८२,४; वीषि १,३२.

सर्व-नाम-प्रवरण- -नाय
३,२; ३३,३,१.
सर्व-नाम-प्रवरण- -ना वी
५,१५; -ने: वीष ४७, १
वाप २७, २०.
सर्व-नाम-प्रवरण- -ने
१,१,१.
सर्व-नाम-प्रवरण- (०-४) \rightarrow \rightarrow \rightarrow
-ने: वीष ७०,१,१.
सर्व-नाम-प्रवरण- -ने: वीष २,१,
सर्व-नाम-प्रवरण- -ने: वीष
२०,१४.
सर्व-नाम-प्रवरण- (०-४) \rightarrow \rightarrow \rightarrow
-ना वी १६, २, ४; वीष ४
१६.
सर्व-नाम-प्रवरण- (०-४) \rightarrow \rightarrow \rightarrow
-ने: वीष २०,३; ४४,६; वीष ५५
सर्व-नाम-प्रवरण- (०-४) \rightarrow \rightarrow \rightarrow
-ने: वीष ५५, ७.
सर्व-नाम-प्रवरण- (०-४) \rightarrow \rightarrow \rightarrow
-ने: वीष १, १.
सर्व-नाम-प्रवरण- (०-४) \rightarrow \rightarrow \rightarrow
-ना वी ६, २, ४; -ना वीष १
८,१३.
सर्व-नाम-प्रवरण- (०-४) \rightarrow \rightarrow \rightarrow
-ना वीष ४, ८, ११.
सर्व-नाम-प्रवरण- -ना वीष ६,१
सर्व-नाम-प्रवरण- -ने: वीष ११,
२,२.
सर्व-नाम-प्रवरण- (०-४) \rightarrow \rightarrow \rightarrow
-ना वीष ७,३, २०.
सर्व-नाम-प्रवरण- (०-४) \rightarrow \rightarrow \rightarrow
-ना वीष ६, २, ४, १; द्विषी
६,७,६; वाप २७, ३; वीष १,
२१,१, -नाय वीष ४५,१६.

a) वारिभाषि-संज्ञा- । b) वा. । c) वीष. १५१८ । d) व. = वीष- । e) वीष-
देवा ३,५,६,२१ सर्व-नाम-प्रवरण-दति वीषः । f) वा. = वीष-दति वीषः । g) वीषी. (प्रवरण), वीषी, द्विषी,
त्रिषि. वापः ।

सर्व-पुष्प- -लैः अय १, ४९, २.
 सर्व-पूर्व- -शौं क्षप्र ५, ५६.
 सर्व-पृष्ठ, षा^०- -ष्टः शोश्री ११, १५,
 १; १६, १५, १३; १४; वाश्री;
 -ष्टम् निम् ६, ४ : २१; -ष्टया
 बौश्री १३, २९ : १; माश्री ५,
 २, ३, १; हिश्री १५, ६, ७; शौष
 १, १, ३०; -ष्टा शोश्री ९, २६,
 ४; शौश्री २४, ६ : ३; -ष्टाय
 शोश्री १५, ६, ८; ७, ९; -ष्टानि
 आश्री ४, १३, १; -ष्टाम्
 आपश्री १०, २२, ७; २०, ९,
 २०, माश्री ६, २, ६, ४०; वाश्री^०
 ३, ३, १, ६०; ४, १, ५६;
 हिश्री २२, ४, १७; -ष्टायाः
 माश्री ५, २, ११, ४७; -ष्टे शोश्री
 ११, १५, ६; १०; १२, २, १२;
 २३; ६, ८; आपश्री; -ष्टेन शोश्री
 १३, १३, १; क्षश्री २५, ११, ४;
 आपश्री १४, २३, १; माश्री;
 -ष्टेषु आश्री ८, ४, १८; निम्
 ६, ६ : २३.
 सर्व-पृष्ठ, षपा^०- -ष्टयः हिश्री
 १७, १, ८; -ष्टय् आपश्री २, २,
 ४, २४०; हिश्री १४, २, ३५०.
 सर्व-पेयण- -यम् मीस् ३, ३, ४३.
 सर्व-प्रतिविधि- -धौ काण्ड ४१:३.
 सर्व-प्रतिपेय- -यः पावा ६, १,
 ११३; मीस् ९, ४, २०.
 सर्व-प्रस्थानाय- -यः वैश्री १ १५:
 १००.
 सर्व-प्रदान- -नम् मीस् ३, ४, २७.
 सर्व-प्रदान- -य- -व्याय् मीस्
 १०, ७, २३.

सर्व-प्रयत्न- -त्वेन आसिप् २, ७, ६:
 १३; ३, १२, १ : १४; १६;
 विष ५२, १६; ४५, ३३.
 सर्व-प्रयोग- -मो मीस् ११, १, १६.
 सर्व-प्रसह- -ज्ञः पावा १, १, ५०;
 ६०; ७३×४.
 सर्व-प्रसवण- -गानि शंष ११६:
 १३.
 सर्व-प्रजापत्य- -स्या^० बौश्री १०,
 ११ : १४; -स्या^० बौश्री १६,
 ११ : ८; ११ : ४.
 सर्व-प्राणि-हित- -तः वैष ३, १,
 ११; -तम् वैष ३, १२, ८.
 सर्व-प्रातिपदिक- -केभ्यः पावा ३,
 १, ११; ७, १, ५१०.
 सर्व-प्रापिन्- -पिना मीस् ११, १,
 ५२.
 सर्व-प्राप्ति- -सेः मीस् ११, १, ३८.
 सर्व-प्रायश्चित्त- -त्तम् शोश्री ३,
 १९, ८; वाश्री २५, १, १०; १२;
 आपश्री ९, १, ११×४; १४, २६,
 ७; वैश्री २०, १० : ६; १५,
 ६×४; हिश्री; -त्तानि आश्री १,
 ११, १०; १३, ७; आपश्री;
 -त्तेषु वैश्री २०, २५ : ९; -त्तैः
 आपश्री ९ १२, ७.
 सर्व-प्रायश्चित्त-प्रजापत्या (ल-
 ष) न्तर- -रम् पाण्ड १, ५, ११.
 सर्व-प्रायश्चित्त(ग-आ)हृति- -श्री
 शंष ५, १, ८; ८, ४; -श्रीः
 वैश्री ७, ११ : ११; कौष १,
 ५, २९; -श्रीतीनाम् आप १,
 १०, २३; आसिप् १, १, २ :
 ११; ५, ४ : ३०; ३, २, २ : १३.

सर्व-प्रायश्चित्तोप- -यान्
 वैताश्री २३, ११; कौस् ५, १२.
 सर्व-प्रायश्चित्त- -त्तः वाय २२,
 १६; शौष ३, १०, १८.
 सर्व-श्रीक्षण-मार्जन- -नानि आपश्री
 १९, १९, ७.
 सर्व-फल- -लम् अय २६, ५, १०.
 सर्व-फल-प्रद- -दाः वाज्यो ६,
 १२.
 सर्व-बहुस्वार- -रः नाशि २, १, ४.
 सर्व-बीज- -जानाम् माय १, २८ :
 ९; -जानि काण्ड ७२, १; माण्ड
 १, २८ : ९; शौष; -जैः काण्ड
 ५७, २; अय १, ४३, २; विष
 ९०, ३.
 सर्व-बीज-रस-रत्न-गन्धा (र-
 ष) वकीर्णे- -रंम् अय १०,
 १, १.
 सर्व-सूदती- -तोषु क्षम् ३, ५ : ६;
 निम् ६, ५ : ८; ७, २ : २२×४.
 सर्व-सूदती-प्राय- -राणि निम्
 ६, ५ : ९.
 सर्व-भक्ष- -क्षम् माश्री २, ४, २,
 ११; दाश्री १५, ४, २०; लाश्री
 ५, १२, २४; -क्षः वाश्री ९,
 १४, ६; आपश्री ८, १६, १२; १२,
 २८, १०; बौश्री ७, १७ : ३०×४;
 वैश्री; -क्षान् माश्री २, ५, २,
 ३२.
 सर्व-भक्ष- -क्षय- -यम्
 वैष २, २, ५८.
 सर्व-भक्ष(क्ष-ष)र-कन्द-
 मूल-वत्त-भोत्त(ग-ष्)दि-
 -श्रीनि शौष २, ७, ७.

a) यत्. b) वैष १६. c) परस्परं पाये. d) = सर्व-पृष्ठ. e) तय, आपश्री ५, २०, १८
 गवां प्राय्या इति पाये. f) घृ. सप्र. तैज २, ८, १, १। g) कम. h) ष्कारम् इति पाति. i) = प्रायश्चित्त,
 (तत्तमित्तम्) होम- व। कस. j) पाये. १ १८५४ ८ द. k) तत्पेदसीयः घृः प्र. l) पाये. १ १८०१ ०
 द. m) विद. (यमल-)। तय. धर्मणि घृ।
 वैषय-१२

१ सर्व-भाग-> १५- अयम् निवृ
३, १ : ३.

२ सर्व-भाग- -माः निवृ ३, ५ : १२;
६ : ३५; -गम् निवृ ३, ५ :
१३, ६ : ३३; -गाः निवृ ३, ७ :
१४, १८; -गानि निवृ ३,
७ : ७.

सर्व-भान्- -भान् पावा ४, १, ६३.

१ सर्व-भुज्- -भुज् भव १, ३७, २;
अथा ७, २.

सर्व-भूत- -भूत वैष ३, ७, १३;
-भानाम् आभित् २, ६, १ : ३०;
७, १० : १२; माय; -भानि
बौध ३, १५, ६१; बाध ४, ९, ३;
६, ६, १०१; आभित्; -भेभ्यः
निवृ ४, ३ : ३; बौध; -भेषु
आपथ १, २२, ७; वैष ३, ५, ७;
द्विष; -भैः आपथ १, २३, ६;
द्विष १, ६, १४; वृदे २, ३१.

सर्व-भौतिक- -भूम् अथ
१२, ५, ३.

सर्व-भूत-कुपता- -साम् वैष ३,
१, ७.

सर्व-भूत-क्षय- -नाय आभित् २,
६, ८ : ३४; अथ ४३, ५, ४९.

सर्व-भूत-विहाता- -सा वा १४,
२६.

सर्व-भूत-निवेश- (व>) नी-
-भौम् अथ ४, ३, ४.

सर्व-भूत-पवि- -तिः आभित् १,
२, १ : १८; बौध ३, १, २५;
अथ ६७, ६, ७.

सर्व-भूत-परीषदा- (द-आ)
बौध- -धाम् आपथ २, ५,
१३६.

सर्व-भूत-प्रशंसा- -सा आपथ
२, २१, १०; द्विष २, १, २३.

सर्व-भूत-भव- -याप अथ ५३,
१, १.

सर्व-भूत-भय- (य-आ) गद्-
-भम् अथ ७२, ३, १६.

१ सर्व-भूत-भृत्- -भृत् अथ १,
३९, ३; ४०, २, ५; अथा.

सर्व-भूत-दहन- -ने वृदे ७, ४४.

सर्व-भूत-द्विष- -भाप अथ ६६,
३, ६१.

सर्व-भूता- (त-भा) मन्- -मा
नम १, २, १६.

सर्व-भूता- (त-म) मय-दक्षिणा-
-णाम् वाप १०, १.

सर्व-भूमि- -पाम ७, ३, २०.

सर्व-भूमि- -पा ५, १, ४१-४३;
७, ३, २०; -मः आपथी २०,
१, १; बौध १५, १ : १.

सर्व-भृत्- -भृत् विष १७, १७.

सर्व-महल-कार्य- -वेषु आउवो
१०, ३.

सर्व-माल्य-मांसा- (स-अ) तान- -भै
विष ५१, २१.

सर्व-मनोहर- -रम् विष १, २७.

सर्व-मान्य- -त्राम् वाथी १७, ५,
२२; -भौः अथ ३३, ६, ६.

सर्व-मान्य-समन्वि- (त>) वा-
-ताम् अथ १, ८, १०.

सर्व-मान्यो- (न्-उ) क- -कम् अथ
२३, १३, ४.

सर्व-मय- -यः वा १४, ५.

सर्व-मरण- -णाम् वाथी २५, १४,
२१.

सर्व-महापातक- -कैः विष ८, २३.

सर्व-माय- -मय विष ५१, ७२;
सर्व-माया- -माः निवृ १, ५ : २४;

माय १७, २०; -माभिः वा
४, २७.

सर्व-मित्र- -पाम ४, ३, ११६; -प्रः
वा २, २४.

सर्व-मित्रि- (व>) वा, -वी- वा
४, ३, ११६.

सर्व-मुग्ध-स्थान- -गम् आशि १,
११.

सर्व-मोक्ष- -यः वाथी १६, १५,
१५; १६; वाथी; -धम् वाथी
२५, १०, १४६; द्विष ३, १४३;

-धे वाथी १६, १५, १९; वैताथी
३७, १; वा १०, २६; -धेन
वाथी १६, १५, १.

सर्व-मेघपय- -भम् वाप २८, ६.

सर्व-मृग- -शानाम् वीथी २८,
१० : १; वैष २, १३, ७; -भेषु
आपथी ४, १, ७; १६, १६; वाथी
३, २, ५, १०; अथ २३, २, ५.

सर्व-मृगिण- -भम् वाथी १, २,
२९.

सर्व-मृग-वन्त्र- -मेषु वाथी १,
१२, १०.

सर्व-मन्त्र-> -मन्त्र- -मित्री वाथी
१४, ३, ९.

सर्व-पाञ्चानुवाचय- -पवाः वैष
१, २६.

सर्व-योग- -भेषु अथ १, ३७, २;
अथा ७, ११.

सर्व-योगि- -यः आभित् २, ५, ३;
२४; वौध ३, ७, १८.

सर्व-वर्ध- -हम् वैषि २२५.

सर्व-वत्त- -साति माय २, ६, ४;

a) वस.। b) भवापे उक्ति प्र. उभयत्र इतिः। c) वस. उप. = १लम-। d) पति, पृ १८२३ ०
प्र.। e) उप. भावे सप्त प्र.। f) सनातः। g) = याग-विशेष-। h) सर्व मेघम् इति वीथि.।

i) उप. = १२३-।

१४, २५; अशौ १२, ३; -सैः विष
 ८७, ८.
 सर्वरत्न-विभूषित- -तम् विष
 १, ४२.
 सर्व-रस- -साः वा १, १६; -सम्
 अण २०, ३, ४, -सैः वाण ५७, २.
 सर्व-राष्ट- -राष्ट माश्री २, २, २, ८५.
 सर्व-रात्र- पा ५, ४, ८७; -अम्
 काश्री २०, ४, ३१; माश्री ७,
 ७, १; सु २, ४.
 सर्व-रिप-प्रणोदन- -वः वृदे ८,
 १२; -नम् वृदे ८, १३.
 सर्व-रुद्र-यज्ञ- -श्रेणु आण ७, ८,
 १४.
 १ सर्व-रूप^a-> सार्वरूप्य^b- -प्यात्
 गीम् ७, ४, १०.
 सर्वरूप-वत्- -वात् साशि १, १२.
 सर्वरूप(१-अ)वाहि- -सिम्
 निम् ७, १३: २७.
 २ सर्व-रूप, वा- -वः वाश्री ३,
 १०१: २; ७, १०८: ६; काश्री ३,
 ४, १, ३; मा १०, ३४; -अम्
 काश्री १६, १, १५; वाश्री;
 -पाः अण २, ६(४), वा ११.
 २१५; -पाम् अण ७, ३०;
 -वे पाण २, ११, ३.
 सर्व-रोग- -गाः अण ६६, १, ४;
 -भ्यः शौच ७, १, १; -गैः अण
 १, ४५, ३.
 सर्वरोग-चया(य-अ)पे- -याय
 अण ३३, ३, १.
 सर्वरोग-प्रक्षेपण- -नम् अण
 ३६, ८, ४.
 सर्वरोग-प्रशम(न>)श्री- नीम्
 अण ६७, १०, १०.

सर्वरोग-विनास(न>)श्री-
 -नीम् अण ३६, १, ४.
 सर्व-रोहित^c- -तम् काश्री ८, ५, २३;
 शौचौ १७, ३९: ६; -तेन वाश्री
 १७, ३, ५.
 सर्व(वे-अ)श्री-अर्थ- -श्वेन वृदे ८,
 ८४.
 १ सर्व-रु- -भ्यः अण ७८, ११६५.
 सर्व(वे-अ)श्री-सोम-याजिन्- -श्री
 हिश्री २१, २, ५५.
 सर्व(वे-अ)श्री-विष्- -त्विज. वैश्री १३,
 १६: १; हिश्री ७, ३, ७१.
 सर्व(वे-अ)श्री-काम- -मरय काश्री
 २३, ५, ३३.
 सर्व(वे-अ)श्री- -र्वाऽऽश्री- -प्यम्
 अण ८, ९.
 सर्व-रक्षण-कवित- -ता अण ७०,
 १९, ३.
 सर्व-रक्षण-संपूर्ण- -नम् अण ३०,
 १, १३.
 सर्व-रक्षण-हीन- -वः वाय ६, ८;
 मिथ ७१, १२.
 सर्व-रक्षणो(य-उ)पेत्- -तम् विष
 ८६, ५.
 सर्व-रक्षण- -गानाम् विष २३,
 ३२.
 १ सर्व-रुद्र- -द्राणि गीम् ६, ५, ३७;
 -श्रेणु अण २, ४, ३.
 सर्व-रुद्र-वा- -ता पावा २, १,
 ३६.
 २ सर्व-रुद्र- -द्रः पावा ३, ३,
 १८.
 सर्व-रुद्र-यजन- -श्रेणु अण १, ३,
 १३.
 सर्व-रुद्र(१-२अ)क- -अम् काश्री

२६, १, १४.
 सर्व-रुद्र- पाण ७, ३, २०; पावाण
 ७, ३, ६०^d; ५, १, १२४^e; -कम्
 आण २, ४, ३: १८; -कस्य
 पावाण ८
 सार्वलोकिक- पा ५, १, ४४;
 ७, ३, २०; पावा ७, ३, ६०.
 सार्वलोकिय- पावा ५, १,
 १२४.
 सर्वलोक-प्रवाण- -नाः विष
 २०, २४.
 सर्वलोक-दिक- -ताय अण ३१,
 ४, ३.
 सर्व-लोक-विशान- -तम् पावा ६,
 ४, १५४.
 सर्व-लोक-दिक- -तम् आण १, १,
 १: ६.
 सर्व-वचन- -नम् पावा ७, ३, १००;
 ८, १, १; १०; मीम् ३, २, १५;
 ५, १०.
 सर्व-व(न>)श्री- -ति माण २,
 १४, ३०.
 सर्व-वसरति- -तोनाम् शौचौ २८,
 १३: १६; शौच ३, ५, १६; श्रेणु
 १, १: १०.
 सर्व-वन्दित- -न्दी वैष ३, १३, ११.
 १ सर्व-वर्ण- -श्रीः शैति ७७; -र्वाः
 अण २०, २, ४; -गानाम् काश्री
 २, १, ५; आण २, ७, ७: ९;
 आण ५; -भ्यः आण २, २९,
 १५; शौच २, १, १४; १०, ५४^f;
 विष ३, ६६; -श्रेणु वैष १, १, ७.
 सार्ववर्णिक^g- -कः आण ५,
 ३, २०; काश्री ५, २, ४; -कम्
 आण २७, १०, १८; काश्री

a) वप. । b) माप. । c) एव इति पाठः इति. शोचः (द्र. सात.) । d) विष. (परमं). । मले.
 वम. । e) सास्यदेवतीषु ऋणि प्र. उप. शक्तिः । f) उप. = १२वण. । g) वप. । h) द्र. पाण. ।
 i) ददमाप्ये क् प्र. ।

१, ४, १, २, द्विधौ २१, ३, १८,
 आपष १, ३, ७, वीष २, ४, ३,
 विष ८१, २१, द्विध १, १, ७९,
 गोष २ ४२, -का द्विधौ १०,
 २, ५३, -कं शेषि २६२
 सर्व-गर्णी(र्णं आत्मा >)म^० - म
 माशि १, १४.
 रसर्व वर्ण, र्ण^० - र्णं नाशि १, ४,
 २, -र्णा जेष १, १ १२
 सर्व-वाह-निधन- न शाधौ १५,
 १०, ४
 सर्व-वादित्र- न्नाणि वीसू १६, १.
 सर्व-व्यतिरिक्त- (व्य >)व्या^० - व्याम्
 व्य २०, १, ३.
 सर्व-व्याप्य^० - व्य वीधौ १०,
 ११ १२
 सर्व-विकार- र. गीसू १०, ३, ६९,
 -रे काशौ ६, ७, २४, वीसू १०,
 २, ११
 सर्व-विकल्पित- वी द्विष २, ५, ४९
 सर्व-विकल्प-प्रणादिन्- -रिने शेषि
 १०
 सर्व-वि(वा >)व^० - व या १, ८
 सर्व-विद्या- पाग ४, २, ६०^०,
 पावाग ७, १, १२४^०, -नानाम्
 आपष २, ५ १, द्विध २, १, ८१
 सर्व-विद्यिक- वा ४, २, ६०
 १ सर्व-वेत्ता- पावा ७, १, १२४
 सर्व-विनाश- शाप व्य २६
 ३, १, -को वीधौ २९, १-१२,
 १४, वीष १२, २३
 १ सर्व-विन्द- न्दुप वार ४, २०,
 गोष २६, १२

सर्व-विभक्ति- -क्तिः पावा १, १,
 २८.
 सर्व-विभाषा(पा-प्र)र्ष- र्षम्
 पावा ५, २, १७
 सर्व-विषय-त्व- -त्वम् गीसू ९, १,
 १५
 १ सर्व-वीर, रा^० - र आधौ ४, ४,
 २^०, शोधौ ५, ६, २^०, वीधौ ६,
 १ : १३^०, माधौ २, १, ३,
 १५^०, वैधौ १२, १४ : १५^०,
 आमित्य, -रम् धाधौ २, ७, ९,
 वीधौ १८, ४० ९, धाधौ, व्य
 १^०, १, ४, -रा वाधौ १, ७,
 ८४, आमित्य २, ४, १ : १२,
 काय ११, २, ३, माय, -राम्
 आमित्य ३, १, १ : ११^०, माय २,
 ३ : १२, ११ ११, -राम
 वीसू ४५, १६, -० रेमाधौ ६,
 २ ३, ८^०.
 सर्व-वृक्ष- क्षेत्रु द्विष १, ११, ८^०.
 १ सर्व-वेद- पाग ७, ३, २०^०, पावाग
 ५, १, १२४^०, -द वाशम्
 ४, -दा^० वीषि ७२, -दान्
 वृदे ५, ५३, -देभ्यः वीधौ
 २७, ११ . १४, -देषु वृदे १,
 ४०
 सर्व-वेदिक^० - वा ७ ३, २०^०,
 -क वीसू ६७, ७, -कम्
 -का नाशि १, १, १४
 २ सर्व-वेद्य- पा ७, ३, २०,
 पावा ५, १, १२४
 ३ सर्व-वेद^० - (> सर्व-वेद्य-
 ३ सर्व-वेद्य पावा) पावाग

५, १, १२४^०.
 सर्व-वेद-त्रिरात्र- -त्रे शोधौ १६,
 २२, २९.
 सर्व-वेद-पवित्र- -त्राणि वाप
 २८, १०, अथ १०५, विष ५६, १.
 सर्व-वेद-गरीर- > ० रि-
 -रिणाम् सु ध, ६
 सर्व-वेद-समित- -गम् वीष ३,
 २, ५९.
 सर्व-वेदसू- पाठ ७, २२७
 सर्व-वेदसू- -राम् काशौ २२, १,
 ९, २५, ११, १०, व्यधौ, -से^०
 काधौ १०, २६, ५, १२, ८,
 १३ x x, नाधौ, -सेना^० काशौ
 २५ ११, ४, वीधौ १४, २१ ३२.
 सर्व-वेदसू-वृशि(वा >)ग^० -
 -न काधौ २२, ४, ११, -गम्
 काशौ ८, २, २७, -गनाम्
 काशौ ८, ३, १३, -गेव काशौ
 १३, १३, १, वापधौ १४, २३,
 १, माशौ ३, ८, ९, वैधौ २१,
 १० ३, द्विधौ १५, ६, १, १६,
 ५, १२, अत्राय ६, ५
 सर्व-वेदसू-निर्मा^० - मांश् लाधौ
 ८, ४, १४.
 सर्व-वेदसू-समुच्च- का निष्
 ६, ६-६
 सर्व-वेदिन्- द्वितम् व्य ७०, १, ७
 सर्व-वेदिकी- -व्य विष ५५,
 १८
 सर्व-व्याधि-रहित- न व्य २३,
 १, ११.
 सर्व-व्यापक-त्व- -त्वम् वैष १,

०) वष । १) वष पागम । २) वैष १ द । ३) = रथा ते १, २, ३ ऐसा १, १३ । वी ७, १, १
 ५४ इति पागे । ४) 'राम् इति पाठ १ वनि शोध (दु वैष १ सुवेदीरम् वी १८, ४, ४० इति पागे) । ५) पागे
 वैष १ विद्यमाने ते ३ ५, १, १ टि द । ६) उप = रवेद- । ७) भवार्थे उन् प्र उभयपदसहित ।
 ८) अन्वेद्यस्यस्य लुक् (पावा ४ २, १०) । ९) वष पाशि । १०) = सर्व-वेद- । ११) = यज्ञ-विशेष- ।
 १२) वष उप = रवेदिण- । १३) वष उप = निर्माण (दु Pw प्रवृ) ।

११,१०^०.
 सर्व-व्याख्या (व्य-आ)कारा—वत्
 वैध १,११,१०.
 सर्व-व्रत^०—तः आधमं २,५,१०;
 ६,१३; आशु;—तम् आशु ३,६,
 १; काशु ४१, २३.
 सर्व-वाक्—सौ मीम् ६,३,१.
 सर्व-वाद्य-निर्वाहण—णः आण्यो
 ३,२;—णम् अण २०,७,२.
 सर्व-वाद्यु-विनाश—शाथ अण
 ३४,१,५.
 सर्व-शब्द—इडा लामौ १०, १,
 २०;—इत्यम् मीम् ७, ३, ११.
 सर्व-नाम् (ः) आश्री २,१४,२६××;
 आश्री; वैश्री १५, ३८ : ५^०.
 सर्व-नास^१—स्वाणाम् वैश्री १५,
 ३६ : ४; हिश्री ८, ८, ३०.
 सर्व-नासत्र(र-अ)न्त—न्ते वैश्री
 १५, ३६ : ५.
 सर्व-नासत्र-परिधानी (व >) पा-
 यासु आश्री ५, ९, २५
 सर्व-नासत्र-यातया(ज्या—अ)न्त-
 न्तोपु आश्री ५, ९, २७.
 सर्व-नासा—न्वासु नाशि २, ८, ८.
 सर्व-नासिन्—न्तिसम् अण २८, २, ५.
 सर्व-नासिन्-न्व^२—रम् अण २५,
 १, १०; ६, ७, ८, ८.
 सर्व-नासत्र—स्त्राणि शंभु ४;—स्त्रोपु
 नाशि १, ४; याशि १, ५१.
 सर्व-नासत्र-रहस्य—रपम् याशि
 २, ११७.
 सर्व-नासत्र-विद्^३—विदम् अण
 ६८, ५, ८.
 सर्व-नासत्र-विनाश—० इ अण

२९, १, ३;—दाः कौशि ६४.
 सर्व-नासत्रा (स्त्र-अ)र्थ—र्यम्
 अण्यो १, ५४.
 सर्व-नासत्रा-विनाश—दाः कौशि
 ५७.
 सर्व-नासत्रा—स्थान—ने वैश्री १८, ६ :
 ३.
 सर्व-नासत्र—न्यानि द्विश्री १६, ६,
 १४; निप २, १४;—त्ये हिश्री
 १६, ६, २२.
 सर्व—शीर्षामिषा (य-आ)द्वया (दि-
 वा)मय—यम् अण ९, ८६.
 सर्व-शुद्धि—द्विपु वैध ३, ३, १.
 सर्व-शेषत्व—अवात् मीम् २, ४, २४;
 ६, १, ४४; ८, १; १०, ६, ६९.
 सर्व-शिवत—तः वैश्री १७, २३ : ११.
 सर्व-श्वेत—तम् यु ६, २.
 सर्व-संयोग—नाश मीम् ३, ५, १;
 २५; २९; १०, ८, ४७.
 सर्व-संस्कार—रः मीम् १०, ६, ६९.
 सर्व-संस्था—स्याम् वीश्री ८, २१ :
 १५; १०, ११ : १६; ५९ : १७;
 —स्यासु आश्री १४, १, १०;
 ३, १; वैश्री १७, १ : ७; ६ : ११.
 सर्व-सं(व्या >)र्षव^४—त्व—आशु
 मीम् ५, ३, २.
 सर्व-संस्था-विकार—रः मीम् १०,
 ६, २२.
 सर्व-सर्ग—निवृत्त—तस्य आशु
 ३, १०, ४ : ३५.
 सर्व-सत्त्व-हित—ने अण ७०, १, १.
 सर्व-सत्त्व—नेपु आश्री १०, १, १.
 सर्व-संधि—त—जम् नाशि १, ५, ६.
 सर्व-संसाह^५—हम् अण २०, ३, ४.

सर्व-सप्तदश^६—शाम् वीश्री २५,
 ३४ : ११; २६, १६ : ४; ६.
 सर्व-सर्ग—माः वैध १, ९, ७.
 सर्व-समास—तः काश्री १२, ६,
 १८; काशु ५, २.
 सर्व-समुद्भ—इम् आशु २, ७, ८.
 सर्व-समुद्भि—इपै वीश्री १, ११ :
 १४५.
 सर्व-संपद्—यत् अण ७०, १२, ४.
 सर्व-संपद्-समुद्भि—द्विः वैध ७,
 १ : ९; ८ : १३.
 सर्व-संप(व >)वा—आ आशु १,
 ५, ५.
 सर्व-संप्रत्यया(य-अ)र्थ—र्यः पावा
 १, ३, १०.
 सर्व-संसार-श्रुति—तम् अण १४,
 १, ३.
 सर्व-सर्व-समुच्चय—यः आ ७०^१,
 ११, १.
 सर्व-सत्य—रयेभ्यः निप ३, २३;
 —स्वेषु अण ५९, १, ३.
 सर्व-सत्त्व-रत्न-नाम्नो(न्य—उ)-
 पेत—तम् निप ९०, १६.
 सर्व-साक्षिन्—० शिन् अण २, ४,
 ११.
 सर्व-सा(व-आ)दि^७—वेः पावा
 ४, २, ६०.
 सर्व-सामन्—मसु निप २, १३ :
 १६;—मः द्विश्री २४, ६, ३^१.
 सर्व-सांपद्—इम् आण्यो ७, १६;
 —दादि मीम् ११, ११.
 सर्व-साम्म—ये आश्री १२, ८, १७.
 सर्व-सिद्धि—द्विः अण २, ५, ५;
 मीम् ७, १, ८^२.

a) यथा इति आ. । b) अण. वा अण. वा । c) पाठे. इ २११८ j इ. । d) उप.
 = १४२२-१ । e) उप. कौशि < √कृ । f) उप. < √विद् (श्ले) । g) अर्थात्तान् इति पाठः ।
 गनि. बोधः (तु. ष.) । h) वत्. । i) सत्. वा वत्. वा उप. = १४२२-१ । j) = ४४-१ । k) तु. पाठः ।
 लघुदि. सादेः इति पाठि. । l) सर्वे साज्ञः इति द्विपदः बोधः (तु. वृद्धयं वृद्धम्) । m) सर्वपर्यः इति जीव. ।

सर्व सुख^१- भा अण २२, ८, २
 सर्व-सुरभि- नि काथी ७, ४, २३,
 द्वि १, १०, ४.
 १ सर्वसुरभि-गण- अथै. वीण
 १, १८, २.
 २ सर्वसुरभि ग(न्ध) > पा^०-
 अथवा वीण १, ५, २९.
 सर्वसुरभि-पूर्णे- आनि वीसू
 २६, २९, ७६, ३१, - नै कौसू
 ५८, १२, ८२, ३१, ८३, २०.
 सर्वसुरभि^२- तम् आमिण १,
 ७, १-२, १३.
 सर्वसुरभि-विरो (ल-उ)
 निम- पात्र- त्रेण कथं २१२
 सर्वसुरभि पिण^३- अम् वीथी
 १७, ३९ : ३, ४० : २७, आमिण
 १, ३, १-३, ३ : १३.
 सर्वसुरभि-मि- आणि काथी
 २५, ८, ३, - अथै कौण १, ७, १०.
 सर्वसुरभ्यु (भि-उ) न्प्रदिव- तम्
 काथी १९, ४, १४
 सर्व सूक- केन अण ४६ २, १.
 १ सर्व-सूर- > सर्वसूर- अम्^४
 काथी ५, २०, ७, १३, ६, १,
 भाथी ५, १३, १६, वीथी १, १५
 ८, द्विथी ६, ५, १८.
 २ सर्व सू^५- अम्^६ माथी १, ५,
 ६, ८, काथी १, ४, ३, ३७
 सर्व-सेन^७- पाण ४, ३, ९२.
 १ सर्वसेन^८- अम्^९ काथी १०,
 २, २७
 २ सर्वसेन^{१०}- > सर्वसेन यण-
 न् वेताथी ४३, २४^{११}

सर्वसेनि^१- पाण ५ ३, ११६,
 -नि वीथी १७, ५४ १६.
 सर्वसेनि-यण- अ. काथी
 ३, १७, १२, वीथी १७, ५४-४,
 -अथै शाथी ३, १०, १, -अथ
 काथी ३, ११, १.
 सर्वसेनोय- पा ५, ३, ११६.
 सर्वसेय- पा ४, ३, ९२.
 सर्व-सेन्य- न्यानाम् अण २६, ५, ४.
 सर्व-सोम- अम् द्विथी ८, ५, १८,
 -मात् वीथी १५, २१-१, द्विथी
 ८, २, १९, २०^१, -मानाम्
 काथी १२, २४, ११, १४, १०,
 १३, द्विथी ८, २, २५, ६, १४,
 -अथैयः काथी १८, ७, १.
 सर्वसोमा (म-आ) हुति- वी.
 द्विथी ८, ३, १५
 सर्व-सोमो (म-क) अम्-पूर्-
 -वात् अण १४, ५२
 सर्व-स्वक- अथै काथी ३ ३३, ४,
 १०, ११; माथी ३, १, १९
 सर्व-स्तोत्र- आणाम् काथी १४,
 १०, २, वीथी १७, ६ : ८, द्विथी
 १०, ८, ५५, -अथै काथी ३, ३,
 ३०, काथी १, ११, २३, निम्
 २, ४-१२.
 सर्वस्तोत्र प्रद- अथै काथी का
 ८०
 सर्व-स्तोम^२- मः काथी ९, ३, २६,
 १०, १, ५×५, काथी, -अम्
 काथी १२, ६, ९, काथी १३,
 १५, २, माथी, -अथै वेताथी
 ४७, ७, -अथै काथी ३, २, ५ १८,

लाथी १०, ४, १५, -अथै काथी
 १३, १३, १; काथी १४, २३,
 १, २२, १३, १७, वीथी, -अथै
 काथी ८, ४, १७, माथी ५, २,
 १२, ४६; निम् १०, ५ : २३.
 सर्वस्तोम-नयसहस्र- वी
 काथी ११, ५, ५, काथी २४,
 ३, ७.
 सर्वस्तोम सर्ववृष्ट- अथै काथी
 ७, २, ११.
 सर्वस्तोम-स्थान- अथै काथी
 ११, ६, ७.
 सर्व-स्थान- आनि नाथि १, ५, १२,
 -अथै वीथी २९, ४ : २५
 सर्व स्व- अम् काथी २१, १,
 १५, काथी ९, २०, ६; २२,
 १, ६, २३, १३, ४, काथी ३
 २६ : ७, वीथी १५, ४ : १०,
 ८ : ४, माथी.
 सर्वर-ज्यानि- अथै काथी
 १२, ६, ३३
 सर्वस्य प्रतिनिधि- अथै काथी
 २२, २, २६.
 सर्वस्य हरण- अम् वीथ १,
 १०, १९.
 सर्वस्था (स्व-अ) पहार- अ. विण
 ५, १७९.
 १ सर्वस्वजनम्^३ कौसू १७, १८
 सर्व स्वर- अ पावा ६, १, १८७
 १ सर्व स्वार- > सर्वस्वारिक-
 -कम् निम् २ ६ : ३४, वीथि २,
 ७, ३४.
 २ सर्व-स्वार^४ अ- अथै काथी १५,

a) वस १ b) हलच् प्र उस (पा ५, २, ३६) । c) पति वृ २५९९ p. ६. d) पाणि
 पृ १०८५ b. ६ । e) परस्पर पाणि । f) अण । g) = पवत्र-विशेष । इदमर्थे वा दृष्टार्थे वा अण् प्र ।
 h) < सर्वसेनि > इति प्रथमम् । i) अण्प्रार्थे अण् प्र । j) = अणुपजीवितपविशय- । k) वैप १ द ।
 l) 'स्था- (= सर्व स्व) > स्वया, एतम् इति प्रथमम्, 'अथवा ए' इति २Web LIS १०, १५, 'स्वज (वस)
 ए' इति वा 'अथवा ए' इति वा सर्वसुमितम् । m) = एकाह-विशय ।

१०, १; काश्री २२, ६, १;
 आपश्री २२, ७, २०; हिथ्री;
 -स्य मीष्ट १०, २, ५५; -रात्
 मीष्ट ५, ३, ३६; -रे लाश्री ६,
 ३, ९, ११, १५; निम् ४, १२ :
 ३३; ७, २ : १×५; -रेण लाश्री
 ८, ८, १.
 सर्वस्वार-स्वरसामन्- -म्नो.
 लाश्री ६, ४, ११.
 सर्वं हृत्°- -राः विष १८, २८.
 सर्वं-हृत्°- -रिः ऋञ् २, १०, १६;
 -रेः काश्री ११, १४, १०.
 सर्वं-द्विवि- -विषाम् आपश्री ९,
 १३, ७; हिथ्री १५, ४, ६.
 सर्वं-गान- -नाम् मीष्ट ९, ४, ५१.
 सर्व-हुत्°- -हुत्ः लाश्री ८, ८,
 १९; आश्रिष्ट २, ७, ८ : ८; -हुत्ते
 आश्रिष्ट १, १, २ : ११; ५, ४ :
 ३०; ३, २, २ : १३; द्विष्ट १,
 ३, ७.
 सर्वं-हुत्, वा- -वाः काश्री १, ९,
 १२; १८, ६, २०; -ताम् आश्री
 २, ६, २३; ३, १०, १७; काश्री
 १०, ८, ७९; आपश्री; -ताः
 लाश्री ९, १३, १२; क्रीष्ट १०,
 १०; -ताम् आपश्री १७, १६,
 १४; २०, २१, ६; वैथ्री १९, ६ :
 १०७, हिथ्री; -ताम् वाठश्री
 १२३, हिथ्री १३, ८, ३१; द्विष्ट
 २, १५, ८; -तेन काश्री १२, ६,
 ११; १८, ४, २३; २०, ७, १६;
 -त्री आपश्री १२, २३, १०.
 सर्वं-हुत्त्व- -न्यात् काश्री ९,
 १३, २७.
 सर्वं-होम- -नामाम् वैष्ट १, १५ :

१८; ६, १ : २३; -मे ह्रस्व ३,
 १४२.
 सर्वं-होमा(म-अ)परितुष्टि-दर्शन-
 -नात् मीष्ट ७, १, २३.
 सर्वा(र्व-आ)कर- -रेषु विष ३७,
 २२.
 सर्वा(र्व-अ)कुशल-मोक्ष- -क्षाव
 काष्ट ५, १०.
 सर्वा(र्व-अ)क्षर-गण- -गणस्य याति
 २, ६.
 सर्वा(र्व-आख्या)ज्य-त्व- -न्यात्
 मीष्ट १०, ४, ४३.
 सर्वा(र्व-अ)धि- -द्विभिः काष्ट
 ३९ : १; -त्रिषु वैष्ट २, ७, १.
 सर्वा(र्व-अ)श्रियोम°- -मः काश्री
 २४, ७, ११; -साः वीथ्री १६,
 १६ : ६; -मैः काश्री १४, १, ७.
 सर्वा(र्व-आ)श्रिय°- -यः आश्री ९,
 ७, २३; निष्ट ६, १३ : १७;
 -याः वीथ्री १६, ११ : ७, १९ :
 ३; -यात् काश्री १४, ४, ६.
 सर्वा(र्व-अ)घ-विनिष्टदन- -नः
 विष २३, ५९.
 सर्वा(र्व-अ)घ-सूट(न>)या- -ना
 विष २३, ५८.
 सर्वा(र्व-अ)ङ- -ङ्गस्य वैष्ट १, ५ :
 ५, -ङ्गामि वैताश्री ३, १४०°;
 -ङ्गम्यः काष्ट १, ११, १२; गोष्ट
 ४, १, ३; काष्ट ३, ४, १४; -ङ्गेषु
 वैष्ट १, २० : २०°; ह्रस्व ४,
 २१५; -ङ्गीः यैष्ट ३, ६, ५;
 काष्ट ३, ११, ११; काष्ट ३, २, ६.
 सर्वाङ्क°- -ङ्कैः क्षप १९°,

३, ३.
 सर्वाङ्क-नम् (ः) ऋञ् २, ३३.
 सर्वाङ्क-शोभ(न>)ना- -नाम्
 वृद्धे ५, ६६.
 सर्वाङ्क-शोभ(न>)नी- -नी
 वीष्ट १०६, ७°.
 सर्वाङ्क-संपूर्ण- -म्यैः वा १४, ६.
 सर्वाङ्क-सुन्दरी- -रि अश्री २, ५.
 सर्वङ्गा(ङ्-अ)दुसारि- -री
 आशि ८, २०.
 सर्वाङ्कि(र>)नी°- -नीम्
 आश्रिष्ट १, ६, १ : २.
 सर्वाङ्गीण- -पा ५, २, ७.
 रसर्वा(र्व-अ)ङ्ग°- -ङ्गः वाधुश्री ३,
 ३५ : ४; ४, ६५ : ५; १०९ :
 ६; ऋञ् ११, ३(२).
 सर्वा(र्व-अ)हृत्तुलि- -मूला(ल-अ)म-
 -मम् वैष्ट १, ५ : ७.
 सर्वा(र्व-अ)ञ्च्- -न्याद् वाष्ट ३, ८,
 ५.
 सर्वा(र्व-अ)श्री- -श्रीः द्विष्ट २, ५, १८९.
 सर्वा(र्व-अ)श्रिथि°- -थिः वीथ २,
 ६, १७; गोष्ट ३, ३०.
 सर्वा(र्व-अ)श्रिदेश- -शः मीष्ट ९, २,
 ३५.
 सर्वा(र्व-आ)रमक°- -कम् ऋञ्
 ५, ६.
 सर्वा(र्व-अ)श्री- -श्रीम् ऋञ् ३, ३०.
 सर्वा(र्व-आ)रमन्°- -रमना विष
 ३, १५, ४३.
 रसर्वा(र्व-आ)रमन्°- -रमनाः
 काश्री १, ७, ८; आपश्री ३, २,
 ११; भाश्री ३, २, ४; द्विथ्री ६,
 ३, ३; वैष्ट १, ९, ७.
 सर्वा(र्व-आ)दि- -द्विषु ऋञ् ५,

a) उप. कर्तारि अच् प्र.। b) ऋञ्-निष्ठाप-। c) उप कर्तृकर्मणोः विष्ट। d) वस. वा कृत्. वा।
 e) पश्मि. वैत् १ द्विष्ठादि ते ५, ५, ९, २ टि द्। f) सर्वां प्र.। g) निष्ट. (वन्मा-).। h) वग.।
 i) उप. = आत्म-शक्ति-।

४४; -दीहि वा १,१,२५; -देः
 पावा ५,२,१३५.
 सर्वादि-गण-शब्द^१ - इदम्
 जिधोवा १४५.
 सर्वाद्या(दि-आ)नन्तर्ग-कार्या
 (शे-अ)थे- -थेम् पावा १, १,
 २७.
 सर्वा(र्व-आ)दित्य-रूप- -पम्
 व्याप्ति २,४,११:१५.
 सर्वा(र्व-अ)देस- -सः पावा १, १,
 ५३;५४.
 सर्वादेश-प्रसङ्ग- -ङः पावा १,
 १,३; ५०×५.
 सर्वादेशा(श-अ)थे- -थेम् पावा
 १,१,६१; २,४,३२×५.
 सर्वा(र्व-अ)दुसुत- -वानाम् अप
 ६७,१,७; ३-४,५; ५,३×५.
 सर्वादुसुत-विनाशि(रु >)न्नि-
 -नी अप ७०^३, ११,२.
 सर्वादुमुषो(त-उ)पत्ति- -तौ
 अप ३१,८,२.
 सर्वादुमुषो(त-उ)ह्रव^२- -वः अप
 ७०^३, १,५.
 सर्वा(र्व-आ)घ^३- -घाः वैष् १,
 ७:२.
 सर्वा(र्व-आ)घान-> -निन्- -निनः
 वैधौ १,७:१५.
 सर्वा(र्व-अ)घिकार- -रः मीम् ६,
 १,२७; १०,३,४२; -रम् मीम्
 ६,१,४.
 सर्वा(र्व-अ)नप्याय- -यः पाण् २,
 ११,१.
 सर्वा(र्व-अ)नुगम- -मेपु माधौ ३,
 ३,३.
 सर्वा(र्व-अ)नुदाच^४- -त्तः क्रा १७,

३६.
 सर्वा(र्व-अ)नुनाम्कि^५- -कः माशि
 १५,२; याशि २,७३; नाशि २,
 ८,१२; -कम् याशि २,७२.
 सर्वा(र्व-अ)नुप्रयोग- -गः पावा ३,
 १,४०.
 सर्वा(र्व-अ)नुभु^६- -भुम् वीध २,६,
 ३१^६.
 सर्वा(र्व-अ)नुमत- -ते आपथ २,
 २१,७; हिष २,६,२०.
 सर्वा(र्व-अ)नुमन्त्रण- -णम् द्राधौ
 १२, २, २१; -नेन द्राधौ १२,
 ४,२; १५, ३, १४; लाधौ ७,
 १२,२; ५,११,१४.
 सर्वा(र्व-अ)न्त- -न्ते निम् ७, ३:
 ३७; पावा ६,३,६०.
 सर्वा(र्व-अ)न्तर^७- -रः युदे २,६१.
 सर्वा(र्व-अ)न्त्यत्य- -त्यात् पावा १,
 ३,३.
 सर्वा(र्व-अ)न्त- -न्तानि पाधौ २, १,
 ५,८; वीत् ७३,१४; अप ५५,
 २,२.
 सर्वा(र्व-अ)न्त- -तथे शाण् २,
 १४,५.
 सर्वा(र्व-अ)न्तो- -निना वीध
 २,२,७७.
 सर्वा(र्व-अ)न्तो- -न्तो आपथ १, १८,
 ३३; हिष १, ५, १००.
 सर्वा(र्व-अ)न्तो- -पा ५,२,१.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्रकार^८- -रम् अप
 ७४,१,७; ४,४; शेष २१७.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्या- -प्यः पावा ८,
 १,५१; -प्यत् पा ८, १, ५१,
 -प्याः अप ९,३,३.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -थेपु वीध १,

१०, १७.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -पी विष ६,
 २२.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -थे मीम् ११,
 ३,१६.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -प्यः पावा ६,२,
 ५२; ७,१,१६.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -प्यः पावा ३,
 ३,१५.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -रम् विष ३,
 ३१^६.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -प्राथि- -निम्
 ५,१०:११^६.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -प्राथि- -ते
 अप १९^६, १,४.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -प्राथि- -विष १,
 ५५.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -प्राथि-
 -तः अप ११,२,१.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -प्राथि-
 १२,६.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -प्राथि-
 १०,३२; आपथ २,१४,५; हिष
 २,३,१६.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -प्राथि-
 १८,१,२०.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -प्राथि-
 १,४.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -प्राथि-
 १२,१३.
 सर्वा(र्व-अ)न्त-प्राथ- -प्राथि-
 निम् ३,२:२५,२६; ३:१०;
 -यम् निम् ३,३,३:४×५; -प्रा
 निम् ३,२:१५; ३:६; -प्रा
 लाधौ ६,२,२; निम् ३, २:

a) क्रा. > पत. 1 = सर्व-पञ्च- (श्र. जैथी १४: १३) । ष्ट १७३ गणशब्द इति नेष्टम् । b) वत. 1
 c) वप. हु: प्र. उल्लं. (पा ३,२,१८०) । d) सपा. तैश्च ३,१२,१,७ भूम इति पामे. 1 e) वत. > पत. 1
 f) वप. भाप. 1 g) *रिष्वम् इति जोसं. 1 h) यक. *सि मगः इति, *सि मतम् इति च शेषः ।

२२, -याणि निम् ३, ३ : २७,
 -याम् निम् ८, २ ७, -ये
 निम् २, ४, ३=xx, -येषु निम्
 ३, २ २७, ३. ४०.
 सर्वा(र्व-अ)भिवादना(न-अ)र्वे-
 -यम् निम् ६, १० २७
 सर्वा(र्व-अ)भिपव°- -वाणाम् द्विभौ
 ८, २, १२
 सर्वा(र्व-अ)भ्यास- -स आप्तु
 २१, ११, द्वि ६, ६८
 सर्वा(र्व-अ)ग्युदय-हृत्- -हृत् कप
 २, २, १०.
 सर्वा(र्व-अ)मन्त्रित° पावा १, १,
 ६३.
 सर्वा(र्व-अ)भात्य- -स्या मात् २,
 १०, ४, -स्यात् मात् २, १६, ४
 सर्वा(र्व-अ)यस°- -स्तानि आपथौ
 १८, १०, १८, द्विभौ १३, ४, ८
 सर्वा(र्व-अ)गु°- -व- -वम्
 शश्री १३, १२, २
 सर्वा(र्व-अ)युव°- -घ वीथी १८,
 ३५ ८
 सर्वा(र्व-अ)युव°- -पाणि वीथी
 १५ २१ ६
 सर्वा(र्व-अ)युव°- -यु शश्री १७,
 १२, १, आपथौ १९, २४, १०^१.
 वीथी १३, ३२. २=xx
 सर्वा(र्व-अ)ग्यक°- -न्वा वीथ ३,
 ३, ४
 सर्वा(र्व-अ)गम्भ- -म्भ शश्री १,
 ८, १, -म्भा शज्यो ६, १३,
 १०, ७^१, -म्भाम् मीत् १०, १,
 ५ -न्नेषु शज्यो ५, ३
 सर्वागम्भ परिमद- -वान् सप
 १६१
 सर्वागिप- -यानि वाम ३८ ३

१ सर्वा(र्व-अ)र्वे°- -र्वा अत् ३३, १,
 ७, शज्यो १०, ८, -र्वात्
 शज्यो २, ७, -र्वाताम् मीत्
 ११, ३, ५, -र्वाय अत् १, ४१,
 ५^१, अशा ११, ५, -र्वेषु विष
 ३, ७१, -र्वै वाजु ७, ५
 सर्वा(र्व-अ)भ- -भाव आशिप
 २, ४, ८ २६
 सर्वा(र्व-अ)यक, का- -कम् शज्यो
 ५, २, -का वैप २, १७ ४
 सर्वा(र्व-अ)यवी- -वी शज्यो
 ६, २
 सर्वा(र्व-अ)याना(न-अ)र्वे°- -र्वाय
 अत् ६९ १, ४
 सर्वा(र्व-अ)यव(व>)नी- -नीम्
 अत् ३६, १, २
 सर्वा(र्व-अ)यिदि- -दि वैष ३, १, १
 २ सर्वा(र्व-अ)र्वे, र्वा°- -र्वे मीत् ३,
 ८, २४, ११, ३, २, -र्वेम् वाथी
 १, १, १, ३, दवि २, ८, मीत् ३,
 ३, ३५, ६, १, १५, ७, १०, ३,
 ३, ११, -र्वा मीत् १२, २, १३,
 -र्वा मीत् ३, ७, ३९
 सर्वा(र्व-अ)य- -वाम् वाथी १, १,
 १८, २२, ८, २१, मीत् ६, ८,
 १९, ७, ३, २९
 सर्वा(र्व-अ)यलक्षण-वर्जित- -न्तम्
 वाथ ११, २९
 सर्वा(र्व-अ)यलाम- -ये कप १, ९,
 १०
 सर्वा(र्व-अ)यशयका(व-अ)यलाम-
 -ये वीथ २, ७, २
 सर्वा(र्व-अ)यवहा- -स्याम् अत्
 ७०^१, ७, ४
 सर्वा(र्व-अ)यवति- -सौ वृदे २, १२४
 सर्वा(र्व-अ)यभ- -माणात् वाथ

१०, ३०, आपथ १, २३, ६, द्विप
 १, ६, १४
 सर्वा(र्व-अ)यल- -नेषु वाथी १, ३,
 ३२
 सर्वा(र्व-अ)यसुर-विनास- -याय अत्
 ४०, २, ८
 सर्वा(र्व-अ)यस्थि- -स्थोनि वीथि ३,
 १०, १
 सर्वा(र्व-अ)यवर्ग- -नेषु वाथी ७,
 १, ११
 सर्वा(र्व-अ)यवर्गि- -वीनाम्
 वाथी ८ ८, ३८
 सर्वा(र्व-अ)यवृत्ति- -ती आपथी ७,
 ५, ७, -तीनाम् शश्री ३, १९, ४
 सर्वा(र्व-अ)यवृ- -पा ५, ४, ८८, -वृम्
 माथी ३, ३, ६, वाथी ३, २५
 १५, आपथ १, ५, २३, द्विप १,
 २, २४
 सर्वेप- -पावा ५, १, १०
 सर्वे(र्व-अ)यिद्व-प्रोति- -निवर्तक-
 -रस्य वाथ १०, १७
 सर्वे(र्व-अ)यल(व>)ल°- -ल वाथी
 १५, १०, ३
 सर्वे(र्व-अ)यल(व>)ली- -लीम् अत्
 ३६, ३, २
 सर्वे(र्व-अ)यल(व>)लि- -लि शश्री ३ २०,
 १६, वीथी २९, ३ १०, -द्विपु
 शश्री १२, ३, ८, वाथी ४, ११,
 ९, -थीनाम् शश्री १२, ४, ४,
 वाथी ४, १२, ४
 सर्वे(र्व-अ)यलुग्य- -नेषु भाथी
 ६, १५, ५
 सर्वे(र्व-अ)यलिका- -वाजु वाथी २,
 १, ६, १
 सर्वे(र्व-अ)यलिस°- -सम् वीथी
 २६, १६ ५, ६

a) उप <अभि/पु (<हु [अभिने]) । b) उप = लौहपात्र- । c) यत् । d) उप.
 = चायु । e) = वानप्रस्थ विशेष- । षय । f) फम् । g) = एष्टाद विशेष- ।
 वैप ४ प्र ६३

सर्वै(र्व ए)कादशिन- -ना। बौधौ
 १६, ११ : १, १९ : ५, -नै.
 बौधौ १६, ११ : १०, ११ : ५
 सर्वै(र्व-ए)काह- -वेपु निम् ३, ५
 २७
 सर्वै(र्व-ए)न्द- -न्द्रा बौधौ १६,
 ११ : ८.
 सर्वै(र्व-ए)न्द्राप्त- -शा. बौधौ १६,
 ११ : १
 सर्वोत्तमाम् इधौ १५, ८, १०.
 सर्वो(र्व-उ)स्वात-प्रतिक्रिया-
 याम् ७०^३, १, ३.
 सर्वो(र्व-उ)दक- -के कौम् २४, ८.
 सर्वो(र्व-उ)दात्त- -सम् श्रमा १५,
 १, -वेन श्रमा १५, १६
 सर्वो(र्व-उ)दिव- -ते माधौ ५,
 १, २.
 सर्वो(र्व-उ)पकरण- -गानि वेधौ
 १८, ६ १, -नै बौध २, ११,
 ४४
 सर्वो(र्व-उ)पद्व-नाशि(रु>)मी-
 -नोम् अय ६४, १०, १, ६८, ५,
 २८
 सर्वो(र्व-उ)प(धा>)व^३- -ध
 श्रमा ४, २७
 सर्वो(र्व-उ)पचान- -नाद् काधौ
 १८, ४, १२.
 सर्वो(र्व-उ)पयोग- -नोव वाध १२,
 १२
 सर्वो(र्व-उ)पलक्षण- -गम् काधौ
 १, ७, ६.
 सर्वो(र्व-उ)भवा(र-म)र्ध- -धं
 पावा ५, ३, १.

सर्वो(र्व-ओ)पथ- -धम् काधौ ७,
 ४, २३, १७, ३, ६, २१, ४, ४;
 धौधौ, -धस्य आपधौ १६, २६,
 ३, बौधौ २२, ६ : ३, ७ : १,
 वैधौ १८, १८ : ७, हिधौ ११,
 ७, ४५; -धाय बौधौ २, १३ :
 ५, १, -धेन बौधौ २, १८ : १,
 १०, ५७ : २१; ११, ७ : १०;
 धौधौ १९, ६ : १२४, बौधि ३,
 २, १, द्राय ३, १, ६.
 सर्वो(र्व-ओ)पधि, धी- -धयः अशा
 १२, २, -धिभि विप ९०, ३;
 -धिम् शाधौ १६, १८, १५,
 -धी वैध ६७ : १३; आधि ३,
 ८, २ : १८, बौधि १, १४ :
 ११, १५ २७, गोय ३, २, ३०,
 हिधि १५ : ११, -धीभि वैध
 १, ११ : ५
 सर्वोपधि-वृत्त- -केन वैध ५, २ :
 ६.
 सर्वोपधि फलोत्तम^३-> -म-
 -नैः शाध १, ११, २०.
 सर्वोपधि-मिश्र- -आद् गोय ३,
 ८, ६
 सर्वोपधि विफा(एठ>)ष्ठा^३-
 -म्याभि. गोय ३, ४, १०
 सर्वोप- पाठ ३, १४१^३, -पम् अष्ट
 ७, २४, -पा अय ३, ७, १३,
 अय ३५, १, १६, ६८, ३, ३, काष्ठ
 ७, २४, -पाद् पाठ १, १६, २३,
 आधि २, ५, १ : ४, ३, ४, ४ :
 २३, आप्ठ, -वै अय ३१, २,
 १, ३६, १२, १४४, निम ८१, ४,

वेध ३, ४, ३, -वौ हिध २, २, ३.
 सर्वोप- -पम् वैधौ ११, ११ :
 ११; कौग् ३०, १.
 सर्वोप-कट्ट- -वै विध १९, १८.
 सर्वोप-विल लाज- -ना अय ६६,
 ३, १.
 सर्वोप मिश्र- -श्री- आधि २, १, ३ :
 १२; हिध २, ३, ७.
 सर्वोप-मिधित- -ताद् वैध ३, ११-३.
 सर्वोप(प-म)रण- -मः पाठ १,
 १६, २३, आधि २, १, ३ १६^३,
 हिध २, ३, ७, वैध १, ८ : १७.
 सर्वोप(प-म)र्ध- -धम् काष्ठ ७, २४.
 स(स-म)र्धिक- -कस्य काष्ठ ४१,
 २३.
 सर्पोवा^३- -का निम् १, ५ : २४,
 श्रमा १७, २०.
 ✓सल् पापा भ्वा. पर. गतौ.
 रसलक^३-(>सालकि-पा) पाग ४,
 १, १६.
 रसलक^३- (>सालकापन-)
 स^३-लकार- -रम् बौध १, ३१.
 स^३-लक्षण- -न भुदे ७, ३, -गम्
 आधि २, ४, ३ १४, -गानि
 अय ५८^३, १, ५
 रस^३-लक्ष्मन्- -क्ष्मा ह्य्रा ३, ११२^३,
 -क्ष्मात्त बौधौ ४, १ : १५^३
 रस^३-लक्ष्मन्-> -क्ष्म-मण्डल^३-
 -ल अय ५०, ६, ३
 सलद-(>दी-पा) पाग ४, १, ४१
 रसलनिक- (>सालनिक-पा)
 पाग ५, १, १२८.
 सलन्द^३- (>दी-)

a) सर्वोत्तमाम् इति शोध (उ सप आधौ २, १८, ७ सर्वत्र तुतीयाम् इति पाठे, सस्मृः शोधपत्रम्)।
 b) वय । c) इत् । d) विप (१कल-) । e) पाठे पृ १७८५ b द । f) मलो कल । g) नाप
 (पान्य भेद, परिसाप- [काष्ठ]) । h) <√म् । i) = वासपह-विशेष- । j) व्याधिरूप इति पाठ ? यनि.
 शोध (उ पाठ प्रथ) । k) = वस- । l) = छन्दो विशेष- । m) व्यय । n) पृ २४८८ d द ।
 o) = रस । p) पृ २५२१ h द ।

सल्लुक- -कम् अण ४८, ११५;
विष ४, ३; वा ६, ३६.

सल्लुङ्ग- -कम् वीथी १६,
२०: ३.

सल्लुङ्ग(व)की- -की आपथी १३,
७, १२; १५, १९, ४०; माथी
११, १९, १३०; वीथ ४, २, १०;
-कीम् द्विष्ट १, १७, १; -क्याम्
आपथ १, ११, ३३; द्विष्ट १, २,
८४.

सल्लुङ्गके(की-ए)कम्को(क-उ)क-
शब्द- -दा: आपथ १, १०,
१९; द्विष्ट १, ३, ४६.

सल्लुङ्ग- -दा: आथी ३, ४, ८.
सल्लुङ्ग(त्रि)ङ्गा- -त्राभि: वीम्
८५, २७.

सल्लुङ्ग(वया)- पाठ १, ५४;
पाठाग ८, २, १८६; -ऊ: वाथी
१, ५, १, १६^३; आपथ २, १७,
२०; -कम् वाथी १८, २२, ७;
आपथी १२, १६, २३^१; माथी
६, २, ६, २०^१; वाथी ३, २, २,
३; निम् १, ५: ६^३; कम् २, १,
९; फल्ल ४८, ७५; ९८; शेष
४४३; वृदे ४, ४१; ४३; फल्लि
१, १३; ३, १; वा १४, ३;
-फल्लम् वाथी १६, १६, ३;
माथी ६, २, ६, २०^३; वाथी १, ४,
२, २; ६, ४, १^३; २, २, ५, ६^३;
वैथी: सु ९, ३९, वाए १, ३१^३;

-ला वीथ १, १६, १८^१; शेष १,
२४, १०^१; वा ३१, ८, २, ३;
-लात् वृष्टम्, १, ५^१; वीम् १२७,
१^१; वाए ६५, २, ११; वाथी
१८, ३^१; वृदे ५, १५५; ६, ८८;
-फल्लम् आपथि ३, ३, १: २३;
वीथि २, ९, ५; ११, २; -फल्लाम्
आपथी २, ७, ९; वैथी ५, ४:
१३; -लात्ति वा ११, ४०^१;
-फल्लम् आपथी १७, ५, ६; २४,
७; वीथी: -ले वाथी १५, ११,
४^३; वैथी ६, १^१; -ले. ३ वीम्
१८, २५; २४, ४६^१.

सल्लुङ्ग-शय- -ये भव ३१, ८, २, ३;
सल्लुङ्ग-शीर-पण- -लात्ति वृष्ट ६३.

सल्लुङ्ग-शय- -ला: अण ३२, १, २२;
अथ १८, ५; -पणम् अणम् ३.

सल्लुङ्ग-पथि- -०वे विष ९८, २४.
सल्लुङ्ग-पाठ- -नाम् वाथी ४,
१२, २६.

सल्लुङ्ग(ल-अ)शय-शयक- -०क
विष १, ५२.

सल्लुङ्ग- -ना: वाथी १, ५, १,
१६^३.

सल्लुङ्ग- -कम् आपथी ५, २१, ११;
वीथी ३, ३: १७; माथी ५,
२१, ११; वैथी १, २०: १३;
द्विष्टी ३, ६, २७.

सल्लुङ्ग- -यम् वाथी ७, ५, १५.
सल्लुङ्ग(प-२थ्य) ५ > ५^१-

-पाठि: वैथी ४, १०: ८.

सल्लुङ्ग- > गालोक- -कम् निम्
१, ७: ३६; वीथ ८, २२; २३;
वृदे २, २१; निम् ८: ४३;
-क्याम् वृदे १, १९; ९८; ५,
१७२; ७, १४४.

सल्लुङ्ग-ना- -नाम् वाथी ४, ८, ४^१;
१४, ६२, २; आपथी.

सल्लुङ्ग- -कम् वाए २, ५, २.

सल्लुङ्ग- -कम् आपथी १६, २४,
१; वैथी १८, १७: ३२; द्विष्टी
११, ७, ३२.

सल्लुङ्ग- पाग ४, १, ४१.

सल्लुङ्गी- पाठमी २, २, ७; वा ४, १
४१.

सल्लुङ्ग- -वा: शायी ७, १५, १; १०;
निम् ७, १०: १२; -यम् आपथी
२, ८, ३^१; माथी ५, १, ६, ३८^१;
वैथी १, १७: १३^१; वा ११,
४३; -वा: आपथी २२, २८,
२७^१; द्विष्टी २३, ४, ६८^१; आपथि
१, २, १: ११^१; वीथि ३, १,
२२^१; -वात् वीम् ५५, ६; ६०
१: १०; ६७, ६; ६८, ३७^१; फल्ल
१, १०; ११, २; -वानाम् आपथी
२२, २५, १; द्विष्टी २३, ४, १;
वीम् ६३, १०; वा ११, ४३;
-फल्लम् आपथी १०, ८, १४; वा
२, १९; -फल्लम् आपथी १, ९, ८;
वाथी ७, १५, ११९; १६, १७,

- a) वैष १ द. । b) = अण- । c) मय. वीथी ९, १०: १४ द्विष्टी २४, ७, २४ सल्लुङ्ग इति पाठे ।
d) = अण- । e) = अण- (वी १८, ३, ११ प्रथ.) । f) विष, वाए. (आदिप- , १७दक- , अन्तरिक्ष- प्रथ.) ।
g) वृ. पापम. । h) पाठे. वैष १ सुदिकम: द्वि. द. । i) पाठे. वैष १ सुदन्तम् मा १७, ८७ द्वि. द. ।
j) = अण्डो-विशेष- । k) पाठे. वैष १ सतिरुत्स मा १७, ८७ द्वि. द. । l) = शान्ति-विशेष- ।
m) = संवदा-विशेष- । n) सल्लुङ्ग-पण- । o) अण- = १क्ष- । p) = मन्त्र-पण-
विशेष- । q) = निष्पु- । r) पाठे. वैष १ पाठम् अण्ड २२, १४ द्वि. द. । s) = आदिप- ।
t) अण- । u) अण- अण्डान्तः अण् प्र. (पाठा ५, ४, ७५) । v) = वाए-विशेष- ।
w) = अण-विशेष- ।

१, ६, आपथी, वैताथी १७, ७^०
 साविक^०- कन् वैताथी २३,
 १०, -केसु कौसु ६७, १
 सव कालीरी^०- री^० आपथी १२,
 २७, १३, ह्रिथी २२ ६, २३
 सव-सुररत्नहोम- मा कौसु ५९,
 २४
 सव वि(पा>)थ^०- थ वापूथी
 ७, ३ १, ७४, ८, १२४
 सव सामान्य- न्याद निरु ७, १०
 १४
 सप्र रथान- न्स् तैत्रा ६, १०
 सवा(व-अ)नि- न्म कौसु ६८,
 ३७
 सवानि सनामि- गो कौसु
 ६०, ५
 सवा(व-अ)त-कर्मन्- मंलि ह्रथ
 ७, १११
 स^० चकार- र याशि १ ७०
 स^० चकारो(र-ऊ)पमक- कम् याशि
 १, १६.
 स^० चचन- पा ६, ३, ८५
 स^० च(ण>)ण्डा- ण्डाम् कौथी
 २६ २८, १०
 स^० चरस, रसा- पा ६ ३, ८३,
 -व्सा कौसु ६२ २१, -सा
 माथी १, ७, ५, २८, वाथी १,
 ७, ३, १९ -साम् वापूथी ३
 १७ १, २, -व्सावा कम् २, ८,
 २५
 सवसा रोम-तुल्य- वानि विप
 ८८४
 स^० वत्सरु- का शप २६, १, ६
 रसयन्- वाव २, ७४

रसचन-सम्नाय- √सु(अभिपरे) द
 सितघनीयस्यु अत्राय ६, ७
 सयने(न-द)ष्टि- √सु(अभिपरे) द
 सितवपा मास^०- न्स्व वशां १५,
 ५
 सचयस्- पा ६, ३, ८५, -यं वस
 गाथी १५ २, ९, वाए १३, ४,
 -वसे माथी ६, २, ३, ५१, -यं वा
 आपथी १७, ६, १, ह्रिथी १२,
 २, १४, द्राथी ११, १, ५, लाथी
 ७, १, ५
 स^० चर्ष->सवर्षीव- वम् तैत्रा ८,
 २
 रस^० चर्षस्- -रं वम् काथी १०, ५,
 ३१, कौसु २, ५, २४
 रस^० चर्षस्- वंसा बुदे २, १४१
 रसवर्षी^०- णं वैष ३, १२, ४
 सवर्णो(र्णं थ) स्वष्टो(उ-उ)प्र निपाद्
 कौष्यन्त पारसव- वा गौष ७,
 १६
 रस^० वर्णो, वर्णो- पा ६, ३, ८५, -णं
 शव ६६, शुभा १, ४३, आशि ६,
 १४, वैशि १७, नाशि २, २, ८,
 पावा १, १, १९, -णंम् तैत्रा ५,
 २८, पा पावा १, १, ९, -णंस्व
 अर ७७, १, १३, विष २२, १०,
 पा पावा १, १, ६९, -णां शप
 ७७, १, १२, कौष १ ८, ६, १, १,
 २, २, ११, विष, -णांश्च आशिपु
 ३, ३ १ २३, कौषि २ ९, ५, ११,
 २१, -णांश्च अर २१, २, १,
 -णांश्चि कम् १, ८, ६, -णांश्च
 कम् २ १, २४, ३, १, ६, विष
 २२, ७४, -काय शप ६६

-र्णवा शप ७२, २८६, कौष
 १, ५, १५, -र्णवाम् आपथ
 २, २७, ११, कौष २, २, १४,
 वैष, -र्णसु कौष १, ९, १,
 विष २६, १, -र्णं शुभा ७, ५१,
 ११२, तैत्रा १, ३, शीव ३,
 ४२, याशि २, ४२, पा ६ १,
 १०१, ८, ४, ६५, पावा १, १,
 ६९, -र्णेषु विष २८, ४५, -र्णो
 शप्रा १, ५५
 सवर्णं ग्रहण- णम् पावा ८, ४, ६५,
 ६८
 सवर्णग्रहणा(ण प्र)थं- र्थ
 पाप्रवा १, २
 सवर्णो-दीर्घत्व- -रवम् पावा ६, १,
 १०६, -त्वरय पावा १, ४, २,
 -स्वाच् पावा १, ४, २, -त्वि
 पावा ६, १, ९९
 सवर्णो-दीर्घो(र्षे-वा)थं- र्थ पावा ६,
 १, १००
 सवर्णं पर- -रे तैत्रा १०, २
 सवर्णं पूर्ण- -रंस्व शप्रा ६, ४५
 सवर्णो-लोप- -रे पावा १, १, १०
 सवर्णं वस् शुभा १, ७२
 सवर्णं वत्स>)व्सा- व्सा शप
 ७०^०, ४, १
 सवर्णं विधि- धिः पावा १, १, ९
 सवर्णं व्यतिकर- -रे शप ३१२
 सवर्णो-सज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १,
 १, ९
 सवर्णो सवर्णोव-पर- -र तैत्रा १७,
 २३
 सवर्णो(र्णं क)कार- नितुल्य(ति-
 व)थं- र्थम् पावा १, १ ४८

घ) पावे वैष १, २२ १५ d द । ङ) तस्तेवमीव्ठ् ष् प्र । छ) नाथ (इष्टि विशेष) । द) पागे
 १ ७६ p द । ए) वस् । f) = वस्- । g) = ३वा- । ह) पाठ (सह>) स- + वपा->
 (वस) सव- + मास-> (कृत्) सवप मास- इति शोध (तु [सा कौषु ८, २]) । इ) वैष १ द । j) सुव^०
 इति पाठ ३ वनि शोध (तु तै ३ २, ८, ५, BC) । k) = जाति विशेष- ।

सवर्णो-नामन- ने विध ५, ४०
 सवर्णा(र्ण-अ)प्रहण- नम् पात्र १,
 १, ६१^२, पात्रया १, ४
 सवर्णा(र्णां अ)नन्त(र>)रा^०-
 रासु वीध १, ६, ६
 सवर्णा पुत्र- न गीध २८, ४१
 सवर्णापुत्र (न अ)नन्तरापुत्र-
 -त्रयो वीध २, २, १२
 सवर्णा(र्णां-अ)पूर्व-आसविहि-
 (न>)ता^०- ताप्याम् आपय
 २, १३, १, हिध २, ३, १
 सवर्णा(र्णां-अ)भिगामिन्- मी
 वध ३७७ २०
 सवर्णा(र्णं-अ)र्थ- -थैन् वावा १,
 १, १, ६, १, १२६.
 सवर्णा वेदन- ने विध २४, ५
 सवर्णा(र्णां-अ)पायिन्- श्री काश्री
 १८, ६, २६
 २सवर्ण- > १सवर्ण- जं दुष्प्र ४,
 १०५
 १सवर्ण- -जिं वीधौव ३ ८,
 -जिंन् वीध १, १४ १०
 सावर्णिं वीधौव जावास्वै(वि ऐ)
 विशापन-नैरोहित्वा(ल अ)अट
 मण्डु प्राचीनयोग्य- ग्दानाम्
 आपधौ २४, ५ १४
 सावर्णि-माण्डूवेय- पाग ६, २,
 ३४
 ४सवर्ण- > णा^०- णां वृदे ६, ६८,
 -णांम् वा १२, १०^१, -णांयाम्
 वा १२, १०

२सवर्ण- गंम् शध ११६ ४६
 २सावर्णि- -जं दुष्प्र २, १०, ६२
 सावर्ण्य^०- -ययंम् वृदे ७, १० ३
 सवर्णा प्रहण- प्रथ २सवर्ण- द
 सवर्णांन्यप्रो^० प्रथ १सवर्ण- द
 स^०-यर्मन्- -मां शध २५४
 स^०-वलकल- -ला माश्री १, ५, ६
 स^०वपदका(र>)रा- -रासु काश्री
 १, १, १८, ३, ३, ११
 सवस्- √सु (यथा) द
 स^०-यस्त्र- -श कौष्ट ३, ११, ३१,
 शय ४, १२, ३१, -सम् कप्र
 ३, २, ४, -छा अप २१, १, ६
 सवाग्नि- प्रथ सप- द
 स^०वाजिन्- -जिन्म आमि २, ४,
 ११ १३
 स^०घात- -तात् अम ३, २६
 सवात्य^०- -नैक्यान् आपश्री २०,
 १४, १०, हिश्री १४, ३, १०^२
 सवात्यो^० वीधौ ५, १० : १८, २८,
 ४ ११
 सवात्यौ^० वीधौ १२, ५ : २८
 सवान्तर्कर्मन्- सप- द
 स^०-वारण- -आ कप्र ६१, १, १०
 स^०वारि- -रिभि वैध ३, ४, ३
 सवालखिल्य- -ल्पम् ययू २ १२^६
 स^०-वालघान- -नेन काश्री १३, ३,
 २०
 स^०-वासय^०- -वौ वेग्यो ६
 स^०वासस्- -सस विध १९ ६,
 -सा सध ४३३, विध ५३, ४

१स-वासिन्^०- -सिरो कौष्ट २७, १३
 स^०वाहन- -न अप २०, २, ८
 स^०विश,शा^०- -नैच वीधौ १०,
 ४२ ४४४, -सा वेग्यो ३८
 स^०विकार- -नम् वाध २, २६, वीध
 ७, ११
 सवित्^०- -००त ईकाश्री १, ३, २३××,
 ४, १२, २^०, काश्री ४, १०,
 १^१^०, माश्री, वैताश्री २२,
 १८^१^०, आपय १, १, ३, कौष्ट
 २४, ७^१^०, -वरि अप ६५, १,
 २, -ता काश्री २, ११, २,
 २××, काश्री ३, ७, ४^१××^१,
 २५, २२, १^०, काश्री ३, ८,
 १^१××, २१, ३, ३३, आपश्री,
 माश्री ५, २, १०, ३, हिश्री १२,
 २, ८^१^०, कौष्ट १, १२, ६^१^०,
 पाय १, ५, १०^१^०, आमि १, ५,
 २ ३१^१^०, वीधि ३, १५ : १७,
 २१, वैध १, १० १^१^०, कौष्ट १७,
 ३०^०, ७८, ११^०, १३७, ४२^०,
 जप्राय ३, १, अप १४, ३, ४, १,
 २^१^०, ३०, ३, ०, ३२, १, १८^१^०,
 ३३ १, ४, ४६, २, ५, ४८,
 १४२^१, अम १२, १^०, शय १०७,
 वृदे १, १२५, २, १२, ६२^१, ५,
 १६१^१, शय २, १०, १५५, ४,
 १३५, साध १, १००^०, ६००, २,
 ८४५, ६४२, २६^०, ५ २४^१^०,
 १२ ३१^०, वैशि १३६, यासि १, ३,
 पि ३, ६१, वनि ८ १७, वेग्यो

a) दस । b) कस > कग । c) उप < √विद् (लाभे) । d) ल्यप । e) वैप १ द ।
 f) = मनु विरोध । g) = यस- । h) पाभे वैप १ सपात्वात् मा २४, १६ टि द । i) सावर्णात् इति पाठ ।
 यनि शोध (तु आश्री) । j) पाभे वैप १ सवर्णा टि द । k) दुष्प्र १, १ सवित् इति पाठे । l) उप
 = १साधन । m) = सपा वै ४ ४, १२, ५ । नै ३, १६, ४ कप्र २२, १४ सजित् इति पाठे । n) सपा सवित
 <> सवित्वा (वै ३, ४, ५, १ व) इति पाठे । o) सपा सवित् (वौ ७, १६, १ व) <> सजित् (मा १७,
 ७४ का १८, ६, १० प्रथ माय २, २, ३, ३८ व) इति पाठे । p) पाठ^२ सविश इति शोध । q) पाभे वैप १
 सिनीवाटी शौ ६, ११, १ टि द । r) = ऋषि विरोध- ।

३३, -साम् वृषाधी २, ११, ४x, शशी ५, ५, १x, ८, १२, ४, १५, २३, १, काशी ७, ५, १३, आपधी २०, २१, ११x, वीथी, माधी २०, १४, १४, १६, ६, माधी २, १, ३, २५x, वाधुधी ४, ४२-४३५, १०३, ५, १५, वैशी १२, १६ २x, हिथी ७, २, १०, दाए ६, ४, १, सामि २, ४, ११:११, गेए २, ९, १०, दाए २, ३, २०, अय ३१, ६, ३, मय ११६ ५८, अय २, १०, १३९, वृदे ८, १५, शुभ ४, २०३, अय २, २९, ३, १५, या ७, ३१६, -तृ वृषाधी १, १३, १x, वृषाधी २, १०, २x, ६, ८, ६^३, वृषाधी २, ३, ३२x, ११, १, १९^३, २०^३, १८, ४, ६^३, २५, २, १२४, वृषाधी १, ३, २x, ५, १७, ५^३, १७, १५, ६^३, वीथी, माधी ५, १०, १०^३, माधी ६, २, ५, १२^३, वैशी १२, ६ १२^३, हिथी ३, ४, ४^३, १२, ५, १०^३, चाय १-२^३, -तृ अशी ११, ८^३, -त्रा माधी ५, २, १४^३, शशी १, ४, ५x, काशी, आपधी ८, ४, १४, माधी १५, ३, १^३, लाशी ५, ११, ९^३, दाए २, १, १९, -त्रे शशी ८, ३, १^३x, वाशी १०, ६, १, १५, ४, ५^३x, आपधी १३, १३ २^३, २०, ६, १, ६^३, वीथी ३, ११ ७^३x, १२ ११ ११, माधी २, ५, १, ४०, ४१, ५, ३, ४, ३०,

११, १०^३, वाशी ३, २, ७, २६, ४, १, २४^३, वैशी, हिथी १४, २, २, ७, ८; आपधी २, २, ४, ३, १३, सामि १, २, २: २५; वीथी ३, ९, ५, वीथी २, ७: १; ३, २०-६, दि २, १९, ६, वृदे ३, ४५

सवित्री- मया अय १, ४१, ८^३.

सावित्र- -म वृषा ३, १, -त्र माधी २, १५, ७, काशी, आपधी १२, १३, २६, १५, ११; अय ३३, ६, १; आशु १, ७, -त्रम् माधी ८, ३, ९, १८, १x; वाशी, आपधी १२, ११, १, ६; वीथी १७, ३९: १४, १२, १-१, सामि १, २, १: १२, वीथी ३, १, २३, गेए ३, १, ९, जेए १, १४ १३, अय ३१, ४, २, अशी ३, १, अय २, १, ३५; २, ३८, -त्रस्य शशी ६, १०, १०, १४, ५६, ७, आपधी, शुभ ३, १७६, चाय १ १, ५, ६^३, ४०-१५^३, -त्रा आपधी २०, १४, ७, वीथी २३, १९: ४, २४, १० ९x, हिथी १४, ३, १६, -त्राम् वीथी १५, ३१ १८, २२, १ ४, १३-१२, -त्रामि आपधी २१, २, १२, वीथी १०, १, २०x, वाधुधी, वीथी १८, १ १३, हिथी ११, १, ७, जेथी २६ १, -त्राम् वीथी २५, ३१-३, ३३: ५,

७, ११, २४; गेए ३, ३, १३^३ वृदे ४, ९१; -त्राम् माधी १४, ३, १३, लाशी ५, ७, १०; -त्राम् वीथी ५, १: १९; -त्रे वीथी १७, ३९: १४, हिथी ८, ६, ५, जेथी २६: १, सामि १, ३, १: १५^३, वृदे ५, ७^३, ८८, अय ७, १४, -त्रेण माधी ५, १८, १, आपधी १, २०, ४^३, ३, १९, ७^३; ७, १३, ८: ८, २, १७, १५, ९, ३; वीथी, वृथ २४, ११, ५०, २, विष ६५, १४, आशु २, ५; -त्रेण वीथी २२, २: ६; २६, १३: ८, -त्रे: शशी १६, १०, १२; माधी ६, १, १, २२, -त्रो हिथी १४, ३, १४.

सावित्री- -त्रि: वाय २८, ११^३, -त्रिय आपधी ११, ६, १०; -त्री वीथी १२, १८: १०^३, १५, ९: ३, १०-३x, आए, अशी १६, १; वाय १०५^३, विष ५६, ९^३, -त्री आपधी २०, २४, ६; हिथी १४, ६, ४, -त्रीमि: वीथी १५, ९-१६, १७, १०: ६, ७, ११: ८, ९, १७, -त्रीम्. वीथी ३, १, २८, -त्रीम्. आपधी १६, ३, ८, वैशी १८, १ ४८, -त्रीम् वाधुधी ३, ९२ २, आए १, २१, ४^३, ५, २२, २९^३, ३, २, ४^३, ५, १३, ७, ४, वीथी, अशी १७, २, माति १, २२,

a) मया सवितृ <> सवित्रा इति पाठे । b) पाठे वृ २६१७ ० टि द. । c) = सवि-विश्व- । d) तथा सवितृन् <> सवित्रा इति पाठे । e) स वितृन् इति मसवता । f) तु वीथ । g) विष, वाय (अह-वोम-प्रम्) । साइत्यदेवतासर्वे अण् प्र । h) सप्र. हिथी १, ५, ५८ साम्यया इति पाठे । i) विष, वाय. (मन्-दष्टि-प्रम्) । j) छान्दसो हल । k) सव त्रि <> त्री इति पाठे ।

साधि १, ६, ४, -अ. आध्री
 १०, ६, ७, नीध्री १५, १२-
 ९, साध्री ९, ९, १०, वैताध्री
 ३६, २१; अथ २, १, २२,
 बुदे ३, ११, -अथा बोध्री १५,
 १: १९, ११: ११, १९, वैध्री,
 -अथा. बोध ३, ३, ४, बोध २,
 ५, ६२, अथ ४६, ८, ३, वाथ,
 -अथाम् आध्री ९, ४, ६, बोध
 २, ५, ४३, अथा १८, ३;
 १९, ३, बुदे ३, ५०, ७८,
 -अथै आध ३, ५, ४, आधि १, २,
 २: २५, बोध ३, ९, ५, माध ३,
 १० ९, बोध २, १२: १२, द्विध
 २, १९, ६, वेध २, ८. ७, बोध
 ३, ९, ५
 साधिनी-नाथ-
 शरीर- -रत्न अथ ३३, १९
 साधिनी-अथ- -अथम्
 अथ ४१, ५, ५७
 साधिनी पतिव-
 -वा वैध २, १ ४, ९, विध
 २७, २७
 साधिनी पाद- दै
 धाध्री १, ३, ५, साध्री १, २, १
 साधिनी पुत्र- (>
 श्रीय- पा.) पाद ५, ३, ११६
 साधिनी-पूर्व- -अथम्
 वैध १, ४ २५, ६, १७ २, -अथः
 वैध ६, १०: ३
 साधिनी-अथ- -अथम्
 अथ ६९, ८, ४
 साधिनी-अथ- -अथम्
 आधि २, ७, १- १६
 साधिनी-अथ- -अथम्

अथ- > आध्रमस- -अथ
 अथ ७, ६१.
 साधिनी सूर्य(यै-आ)
 धम-दैवत- -अथम् अथ १४, १.
 साधिव्य (नी-अ)अ-
 धन- -अथ वैध १, १: १३.
 साधिव्य (नी-अ)अ-
 वचन- -अथ गेध ३, ३, २
 साधिव्य (नी अ)अ-
 -अथे काध्री २०, ३, १२, अथ
 ४१, १, ९
 साधिव्य (नी-अ)अ-
 मत- -अथम् विध ५४, ११,
 -अथम् वाध २१, ६, ८.
 साधिव्य (नी-अ)अ-
 लक्ष- -अथम् वाध २७, १८
 साधिव्य-अथ- -अथम् आध्री
 १४, ५६, ५, -अथे आध्री ८, १, ८
 साधिव्य-अथ- -अथम्
 वैताध्री २३, १.
 साधिव्य-अथ- -अथम् आध्री
 १०, ५, १३.
 साधिव्य-आधाष्टमिध- -अथे
 आध्री ११, ३, ५, ७, ८, ६, ६,
 -अथै आध्री ३, १३, २२.
 साधिव्य-आधिके- >
 अथ- -अथः आध्री ६, १, १, ३,
 आध्री २, १, १, २.
 साधिव्य-आधिके-आधाष्टमिध-
 वैश्वरजा(ज आ)रथकेतु-
 -अथम् आध्री १२, १५, १०,
 द्विध्री २३, १, २०
 साधिव्य विद्वत्- -अथि
 आध्री ८, १, ३
 साधिव्य दासीयत द्विधि-

योजनी-(न-उ)रक्षीण- -अथम्
 आध्री ९, ५, १९.
 साधिव्य प्रभृति- वि आध्री
 ५, २, १६, २१, -अथि. आध्री
 २, १, १, ४.
 साधिव्य (न अ) अ-अथ-
 प्रलिपेध- -अथम् आध्री ९, ५, २६.
 साधिव्य-आधेय- -अथी
 आध्री ३, ११, १५
 साधिव्य आधेय (आ-ये) अ-
 -अथि आध्री १५, १०, १७
 साधिव्य-अथ- -अथम् वैध २,
 ५, ३४; -अथम् वैध १, ३, ३.
 साधिव्य-अथ- -अथम्
 वैध २, ७: ४, -अथम् वैध ३,
 २१-२
 साधिव्य-अथ- -अथम्
 वैध २, ९: ५
 साधिव्य-अथ- -अथम्
 वैध २, ७ ३, ९ ४
 साधिव्य-अथ- -अथम्
 २, ५, १, ४३
 साधिव्य-अथ- -अथम्
 १, ३, २.
 साधिव्य आधेय (आ-ये) अ-
 वैश्वरजा (आ-ये) अ-अथम्
 आध्री १५, ६, ४.
 साधिव्य-अथ- -अथम्
 आध्री १५, १९.
 साधिव्य-अथ- -अथम्
 आध्री २०, ५, २
 साधिव्य-अथ- -अथम्
 आध्री २८, आध्री २, १, ५, ४,
 -अथि आध्री २०, ७, २

a) अथ > अथ. b) = आधुपत्रीविश्वविधि-। अथ = राजकन्या-विधि- इति यावत्। c) विध (सूक्त-)। आध्री।
 d) अथ १ ४ ४ ४ अथकतेन इति नेधम्। e) अथाथ इति पाठः सचि. जोष (तु अथ स्वाम्)। f) अथम्।
 ४ ४ ४ ४ अथाथम् इति नेधम्। g) इति। h) अथम् अथ प्र.। i) इति > अथ.। j) अथम् अथ इति अथ.।

सावित्रादि-निबिद्-
-विद्: आधौ ५, १८, ६.
सावित्राद् (प्र-आ) भेव- वे
आधौ ७, ७, ८.
सावित्रे (प्र-ए) कपाल- लयोः
वैधौ ८, ६ : ८; द्विधौ ५, १, २७;
-साम्भ्याम् आधौ ८, २, २७;
माधौ १, ७, २, ५.
सवितुः-ककुम्भ- -सः^० आधौ ११,
५, ९; काधौ २४, २, १९; आपधौ
२३, ८, १.
सवितुः-ककुम्भ- -दः द्विधौ १८, २,
३^०.
सवितु-पात्र- -त्रेण वीधौ ८, १२ :
७; ८.
सवितु-पुत्र- -त्रय वाच २ : १.
सवितु-मसूत, द- -तः वीधौ १७,
३९ : १५; माधौ १, ४, २, ६;
द्राधौ; -तः आधौ ५, २, १२;
१३; आपधौ १०, ३, ८; वाधूधौ
४, १०३ : ११; द्राधौ १५, ३,
४; ८, साधौ.
सवितु-नण्डल- -कम् आधि २, ७,
११ : १०.
सवितु-वत्- -वतः आपधौ १३,
१२, ३; वीधौ ८, १२ : १६; वैधौ
१६, १३ : १५; द्विधौ १, ३, ४९.
सवितुवती- -तै वाधूधौ ४,
४४ : ३.
स-विच- -चान् वाधौ ९, १, १४.
सवित्र- $\sqrt{\text{उ}}$ (वधा) द.

स-विद्युत्- -द्युत् अत्र ६१, १, १३;
-द्युत्: अत्र ५९, १, १२; -द्युत्म्
अत्र ६१, १, १४.
स-वि(धा>)व- -धः वीधे ३, ६४;
-धे वैधौ १ १९, ८.
सविध-सनीट-भगर्पाद-सवेत-
सदेत- -वेत्तु वा ६, २, २३.
सविद्युत्-वानः^० द्विधौ २, ८, ४२^०.
स-विराम- -भम्^० माधि १३, ५.
स-विवध- > -व-व- -वम् वाधूधौ
३, ११ : २; ४.
स-विदोष- -वः वाधु २, १३; वीधु
२ : २५; द्विधु; -वम् वीधि २,
९, ३; ४; आपधु २, २; द्विधु
१, २३.
स-विदोषण- -व्यव पावा १, २,
५९.
स-विष्टर- -रम् वीधु २०, १३.
स-वितर्ग- -र्गं वाधि १, ६९.
स-विस्तर- -रम् संध २८.
स-विस्तुलि (ग>) द्वा- -द्वा अत्र
७०^०, ११, २३.
सधीमन्- $\sqrt{\text{उ}}$ (वधा) द.
स-धीर- -रः द्विधौ ४, ४, १९;
-राः द्विधौ ६, ५, १६^०.
स-धीर्य- -धीर्मा वाधि ६, ५, ३; -वाः
अत्रम् ८.
स-द्युत-सोम- -मयोः वैवाधौ १७,
७^०.
स-द्युन्त- -जान् काधौ ९, २, २२.
स-द्युण, पा- -वम् वाध २०, १३;

संध ३८५, आपध १, २५, १;
वीध २, ३, १४; द्विध; -वत्य
आपध २, २६, २०; द्विध २, ५,
२१५; -वाग् आपध १४, १०^०.
स-धेणी- पागम् १५६.
सवेतस- > सवेतस- -स^० आधौ
१२, १०, १०; वीधौ ६ : ६;
वैध ४, २, ४.
सवेतो-वत्^० वीधौ ६ : ६; वैध ४,
२, ४^०.
सवेदस- > सवेदस- -स^०
आपधौ २४, ६, २; द्विधौ २१,
३, ७.
सवेतो-वत्^० आपधौ २४, ६, २; द्विधौ
२१, ३, ७.
स-वेदस- -इता आधौ १, ६, १;
वाधौ १, ८, १०; वीधौ १३,
२६ : ८; माधौ.
स-वैश्वान (र>) व- -वै
आपध २, २, २३; आधि १, १,
३ : ४५; द्विध १, ६, ५.
सव्य, व्या- पाठ ४, ११०; -व्याः
आधौ १२, १, ६; ७^०; आपधौ;
-व्यम् आधौ १, ११, ८; १२,
९, ५; ६^०; द्राधौ; आधि ३,
५, ८ : ७^०; वीधु २७, १५;
२९, ३; -व्यस्य आपधौ १,
२३, ३; ६, २८, ७; १०, ५,
१२; वीधौ; -व्या आधौ ३,
८, ११^०; १२, ९, ५, काधौ ६, ७,
७; आपधौ; -व्याः द्राधौ १४,

a) = व-विशेष- । b) परस्परं पाठे. । c) = वस- । d) = वस- । e) वस. (द्र. अभा. प्रय.; वेद. पात्रा [६, २, २३] प्रय. एव. इति) । f) = समीप- । सम. वैधौ २० : ३ अन्ते इति पाठे. । g) पाठः ? । सपा. काधौ १, १५, १७ आपधौ ३, १३, १ सुविमुवा इति । h) वा. किति. । i) वैप १ द्र. । j) पाठः ? सु इति भोवः (द्र. सपा. कै १, ३, ५, १) । k) पाठे. वैप १ सुवैवीताः वी ३, १२, ६ द्वि. द्र. । l) समाने वसे वा देसे वा वृत्तः सोमो येनेति सच. > वस. । m) खय. गोदा २, २, १५ समुवसो इति पाठे. । n) वे. = पठ- । o) व्यप. । p) परस्परं पाठे. । q) परस्परं पाठे. । r) श्वसवत् इति पाठः ? यदि. शोषः (द्र. वीधौ.) । s) सपा. व्यम् <> व्याधि इति पाठे. । t) सु १ (द्र. वैप १, १५२८ b) ।

२, १०, लाभौ ५, ६, १०,
 -व्यात् माथौ १, ८, ५, १८, द्राष्ट
 ३, ४, १५, कौम् ११, १४,
 -व्यात् आभौ ४, ५, ७, १०, ८,
 ८, शांथौ १३, ११, ४, आभवौ,
 द्विपि २, १३, -व्यानि आभिय
 ३, ५, ६, १२, वीपि १, ४ १८,
 ७: १०, द्विपि, -व्याम् वीथौ ४,
 ८ ६, माथौ २, १, ५, ८, वैथौ,
 -व्याया: भाथौ ७, १९, ४,
 माथौ १, ८, ५, १९, वाथौ,
 -व्यायाम् माथौ १, ७, ३, ३१,
 ६, १, ७, २६, ८, ५, कौम् ४२,
 ३१, -व्यापे वीथौ ४, १ ८,
 -व्ये भाथौ १, ७, ३, २, ९,
 ९, शाथौ, आपथौ १, १७, ८०,
 -व्येत् वीथौ १, ३, २६, ११,
 ९, ५, ५, १३, ६, ९, शांथौ, वीथौ
 ९, १० १४, वीपि ३, १, ७,
 -व्ये माथौ ५, ३, ४, २५, द्राथौ
 ३, ३, २६, लाथौ, -व्यौ आथौ
 १२, ९, ९
 सव्य-जहा- जाम् कौम् १८,
 १६, -हाम् कौम् २६, १८
 सव्य-जा-व(त-१अ)क- -क क्य
 ३, ३, १३
 सव्य-तम् () लाथौ ९, ३, १३, वीपि
 १, २, ४०, क्य २, ४, १५
 सव्य-दक्षिण- -जम् ५१, २, ३,
 -व्यो. क्य ३, ३, १०, -गानि
 माथौ १, ८, ४, ४२,
 सव्य प्रतिप(द) -दा- -दा
 आभिय ३, ५, ३ ३
 सव्य बाहु- हुम् वाथौ १६, ७, १३

सव्य-रज्जु- -ज्जुम् कौम् ८३, ४,
 ८५, १२
 सव्य-वचन- नम् कौम् ४, १, ३७,
 सव्य-(स्या)ष्ठा- -ष्ठा: शीच
 २, १५
 सव्य सक्वि-पूर्व-नडक- कम्
 काथौ ६, ७, ६
 सव्य हस्त- -स्तस्य जैष्ट २, ५ ५
 सव्यहस्त पुरोडास- -शा
 वैताथौ ९, १९
 सव्या(व्य-अ)हृगुली- -व्या वाथौ
 २, ४, २९
 सव्या(व्य-आ)दि- -दि वंष्ट २,
 १६-२
 सव्या(व्य-स)वस्- -वस् द्राथौ ३,
 ३, २९, लाथौ १, ११, २२,
 सव्या(व्य-स)वसथ- -व्यम् वैष्ट
 ५, ५ ४
 सव्या(व्य-आ)वृत्- -वृत् वाथौ २,
 ७, २, शाथौ, -वृत् आथौ २,
 १९, ३७, ५ ३, १६, १७, ६, ६,
 १२, ६, शाथौ, -वृत्तौ आथौ ३,
 ३, ६, -वृत्ति वाथौ २, १, ६, ४
 सव्या(व्य-आ)वृत्त- -वृत्त वाथौ १,
 ३, २३, -तानि वीष्ट १२४, ५
 सव्या(व्य-अ)वृत्त- -व्ये काथौ
 २, ४, ४, ८, १२
 सव्ये(व्य-इ)तर- -राम्याम् वाथ ४,
 १३
 सव्ये (स्य)ष्ठ- पा ८, ३, १७
 सव्ये (स्या)ष्ठा- पावा ८, ३, १७
 सव्ये (स्या)ष्ठा- पाव ८, ३,
 १८
 सव्ये(स्य)वृ- वाट २, १०१,

पावा ८, ३, १७
 १सव्यो(व्य-उ)तर- -राम्याम् वैष्ट
 ५, ६-१२, वीष्ट ४, २, ९
 सव्योत्तर-पाणि- -पिम्याम् वैष्ट
 ४ ४ ८,
 २सव्यो(व्य-उ)तर->त्तरि-
 -रिण वीथौ ६, २१ २५,
 -रिणम् आपथौ २४, १३, २
 सव्योत्तरवृ(रि-उ)वस्थ-
 -स्था वाथौ २, १९, १६,
 सव्यो(व्य-उ)तात- -ताम् शाथौ
 ५, ८, ५, -नौ आपथौ ११, ४,
 २, वैथौ १४, ३ ११, द्विथौ
 ७, ४, २३, -नौ वीष्ट ४, ३, १६,
 द्राष्ट ३, ५, २५
 सव्यो(व्य-उ)पक्रम- -मान् माथौ
 १, ४, १, ३
 सव्यो(व्य उ)पगृहीत- -तेन साष्ट
 ४, ७, १३,
 सव्यो(व्य-उ)र- -रन्त काथौ ५,
 १०, १३, २५, १३, ३३
 २सव्य- -व्य शथ २, १, ५१, वृष्ट
 ३, ११४, ११५, जाम १, २७६,
 ३७७, क्य २०, ११, वीति ८०
 सव्य- -व्यम् शाथौ ११, १४,
 २५, -व्यस्य शाथौ ११, १४, २७,
 स-व्यजन- -न शत्रा १८, ३३, तैत्रा
 १, ४३, -नम् जैष्ट २, १:१८,
 शत्रा १८, ४३, ४३,
 स-व्य(वि-म)न्त(र)ता- -रा
 वीष्ट ४, २, २८
 स-व्याक्षेप- -पम् ४५७, १, ६,
 स-व्याहृति ती- -तिम् ४२ ३१,
 १, ५, वाय २५, १३, रिप ५५,

a) पाणे पृ १०३३ ह द । b) पाणे पृ २६२० ४ द । c) पाणे पृ ६३८ ह द । d) ष्विद
 वा विवि । e) वस > वस > वस । f) वस । g) विव (उपत्य-) वस (वृ पत्नी, इत्थ, प्रम्)
 वैष्ट शमिष्यामी क्य इति । h) वृ पाणम् । i) व्यप । j) सव्य इति वाट इति. वीष्ट ।
 k) = तान रिपेव । l) = वस । m) उप = विविपान्तर ।
 वैप-५-१४

१; -वीम् वीष्ट २,१,८.
 सव्याहृति-क,वा- का: वाप २६,
 ४; वीष्ट ४,१,२९; -काम् वीष्ट
 ४,१,२८.
 सव्येतर- प्रथ्. १सव्य- द.
 स^३-व्रण- -णम् वृष ५७.
 रस^३-व्रत,ता- -नीका: वीष्टी २,१९:
 १६; १०, २० : १०; १९, २ :
 २७; वीष्ट ३३,८.
 रस^३-व्रत- -ने आश्री ४,१,१४.
 स^३-वी(वा>)ड,ळ- -ळ: वृष्टेष्ट,१७.
 समीष्ट-स्ये-किर(सु>)ण^३- -णा
 अप २४,६,४.
 स^३-वीदि- -दीम् वाप २७२ : १०.
 स-दा- -रस- द.
 स^३-शकुद्दरस- -से वीष्ट ४,६,५.
 स^३-शब्द- -अम् वीष्ट १, २, १८;
 तैत्रा २३,९.
 स^३-शरीर,रा- -र: आपष २, २४,
 १४; हिष २, ५, १७८; -रा:
 नाश्री २१,३,१३; २५, ७,१३;
 -राम् वीष्ट २,१,९.
 स^३-शालक- -लका: शंष २२४^३; वीष्ट
 १,२७.
 सगलक-दण्ड^३- -ण्ड: काय १, ५;
 माष्ट १,१,२; वाष्ट ६,३.
 स^३-शाख,खान^३- -खाय काश्री १,१३,
 ३६; १९,७,८; -खानाम् काश्री
 १,१३, ३४; -खाम् वीष्टी ११,
 २ : ४; १७, ३३ : ११; -खे
 काश्री १०,३,५.
 स^३-शाह(व>)डा- -कामाम् विष
 ९९,१७.

स^३-शान्तिक- -अम् वीष्ट ३,१३,८.
 स^३-शाला-वृण- -णे वीष्ट २७,३.
 स^३-शाय,यया- -ययम् काश्री १६,
 ५, ७; -यया वीष्टी ६, १ : ९;
 -ययाम् वीष्टी ६, १ : ५.
 स^३-शि(पा>)ख- -राम् कामिष्ट
 २, ३, ५ : २२; हिष्ट २,६,१६;
 वीष्टि १, ६, ४; कष ३,६,१४;
 शंष ३९३; काप २७४ : ६;
 वृष ३६; -खानि आपश्री २३,
 १३,४; हिष्टी १६,५,११.
 स^३-शिरस्- -रा: अप ३६, १,६;११;
 आपष १,३२,७; हिष १,८,४९.
 सशिरस्-क,का- -क: वाप ४, ३८;
 वा १४, ३४^३; -कम् काष्ट ३६,
 १; वीष्ट २,८,१; काप २७१:५;
 -का वीष्ट २, १,१६; १,२; ९;
 ७,३; -काम् वीष्ट १,७,१; शंष
 १,११, २; काष्ट २०,२; २१,१;
 वाष्ट १३, १; वैष २, १०, ३;
 -कौ आपश्री ८, ८, १५; १३,
 २१,१; वैष्टी १६,२६ : ६.
 स^३-शिरखान- -णा: अप ११,३,१.
 स^३-शीर्ष- -र्ष: आपश्री २१,५६.
 स^३-शीर्षन्- -र्षा: हिष्ट ६, ६४^३;
 -र्षा: शानि १२०^३.
 स^३-शीर्ष-वाल-पाद- -दम् कामिष्ट
 ३, ५, ६ : ११; वीष्टि १, ४ :
 २७; -देन कामिष्ट ३, ५, ७ :
 २३; वीष्टि १,६ : १७.
 स^३-शुक्रिय- -यम् चव्यु २ : १२^३;
 -ये वृष १,१^३.
 स^३-शुषि(र>)रा^३- -रा कष १, ७,

१४^३.
 स^३-शू(ठ>)का- -कामाम् कापश्री
 १, १९, १; माश्री १, २०, ९;
 वैष्टी ४,६ : ५; हिष्टी १,५,३६.
 स^३-शूर-से(ना>)न^३- -ना: अप
 ५१,४,४.
 स^३-शूल- -ले वैष्ट ३,१४ : ४.
 स^३-शेष- -यम् काश्री २४, ३, २७;
 -याम् वैष्टी १५,३३ : ७; -देन
 कापश्री १३,११,४.
 स^३-शैलवतकान(ग>)ना- -ना वृ
 ४,१; वाप २८,२१; विष ८७,
 ९; -नाम् विष १,१०.
 स^३-श्वेत-सकु- -कु कष १,३५,१^३.
 स^३-पकार- -रम् श्राप ५,५८.
 स-प-कार-पर- -रत- द.
 स^३-पदक- -दक: श्राप ३, २९.
 स^३-पदपष्टि- -ष्टि: वैष्णो २८.
 सिसपदपष्टिप्रिशात: निष्ट ५, १२:७.
 स^३-पोडशिक,का- -कानि वीष्टी
 १६, २५ : १५; १८, १५ : १२;
 -काम् निष्ट ४, १० : १; १० :
 १७; -केय काश्री ५,१०,२४.
 सक्ति^३- (>सक्ति-ल-)
 ✓सस् (यथा.) पाषा. अदा. पर.
 सवे, निसक्ति निष ३, २३; वा
 ३,१९; सस्तु श्राप ८, ४७^३;
 असस्तन>ना वा ११,१६^३.
 निससक्ति वीष्टी १५,२९ : २३;
 ३० : १.
 निससत्- -स्तत: वा ४, १६^३;
 -सत् अषा २,४,१७.
 सस(यमा.)^३- -स: कष २, ५, २१^३;

a) = वष-। b) = रस-। c) वस.>वष.। d) नाष. (मत्स्य-)। e) वष.।
 f) वष. = १७४५-। g) परस्तरं पाठे.। h) परस्तरं पाठे.। i) वष. = सुधिर-। j) डा. जीकं.
 यति.। अरुच. सप्तु^३ इति, Schrader सुप्तु^३ इति च। k) वष. = देह-विशेष-। l) शाचतल^३
 इति निस्सर्तुः इति.। m) इ २४१० वृ द.। n) पाठे, वैष १ सस्तु इति. द.। o) वैष १ द.।
 p) = कापि-विशेष-।

-ईसम् अण ४८, ८८^०; निघ
२, ७^०; ४, २^०; वा ५, ३४^०;
-ईसस्य आशौ ४, १३, ५;
शाशौ ६, ४, ५.
स^०-सं(स्था>)स्थ- -स्थे छुत् २,
१४ : २०.
ससन्- ✓सत् द.
स^०-संप्रह- -इत् विष १, ६२; ६३.
स^०-सत्प्रिन्- -त्रिणः वापुशौ ३,
४६ : २.
स^०-सत्य- -स्थे विष ६०, ८.
स^०-सत्य- -न्याः अण ७०^०, १६, ३.
स^०-सदोहविधान- -नम् कठश्री
१०२.
स^०-सनक- -कम् अण ४३, ३, ६.
सखनिवस- , *शुपी- ✓सत् द.
स^०-संतान- -नः विष २८, ३६;
-नानि विष २६, ६.
स^०-संधि- -धनिः आश्रित ३, १,
१ : १७^०.
ससंधि-क,का- -काम् निच् ४,
१० : १; १७; -कायाः निच्
१०, ७ : १३; -ईकै^० वीष्ट २,
११, २७; भाष्ट २, ११ : १६.
ससन्धस्- ✓सत् द.
स^०-सप्तभाग- -नेत्र वाशु ६, ४.
स^०-सप्तव्याहृति(क>)स- -काम्
वीथ २, ४, ७.
स^०-सप्तै(व-२)क^०- -कम् वेजो
३२.

स^०-समास^०- -सम् अण ६४, २, ७.
स^०-समुद्र-गु(ह>)हा^०- -ना विष
८७, ९^०.
सिसमुपहवधर्म^०- -मांः द्विशौ १६,
४, २६.
स^०-संभार-जल- -कम् अण १,
४२, ३.
स^०-संभार-यजुष्क- -क्वाद् द्विशौ
१०, ७, १६.
सिसरमतक^०- -क्वा^० द्विष्ट २, ७, १०^०.
सिसरमतण्ड^०- -ण्डः^० आणमं २,
१६, ८^०.
सिसरमतशुड^०- -शः^० भाष्ट २,
७ : २०^०.
ससर्परी^०- -रीः इदे ४, ११६^०; -रीम्
वृदे ४, ११३; -रै^० अण २, १,
५३.
स^०-सर्वै(ई-इ)तरजनस्क^०- -रकस्य
काष्ट ४१, २३.
ससवस्- ✓सत् द.
स^०-साक्षिक- -कम् विष ६, २४^०;
७, ३; ४; ८.
स^०-साग(र>)ता- -राम् अण ४१,
३, ११.
स^०-सामन्- -मा निच् ५, १ : १३.
स^०-सारथि- -थिम् वीच् १५, ११.
स^०-सारिका^०- -का अण ५, २, १.
स^०-सावित्र, प्रा- -प्रम् वीथौ २२,
२ : ६; -प्राः वीथौ २३, १ : ८.
स^०-सिंह- -हाः माशि १५, ७.

स^०-सिक(व>)ता- -ना वाष ६,
१६.
स^०-सुगन्धि-गात्र^०- -त्रे विष ९९,
१९^०.
स^०-सुत^०- -नः छु १८, ५; -नम् वीष्ट
३, ८, २.
सिसुवेयः^० शाशौ ८, ५, २१.
स^०-सुपर्ण^०- -र्णम् चव्यू ३ : १६.
सिसुर- -नाणि पाष्ट ३, ४, १५^०.
स^०-सुवर्ण^०- -र्णम् विष ९०, ३.
स^०-सुवर्ण-गु(ह>)हा^०- -ना
वाष २८, २१^०.
स^०-सुपिर- -नाणि भाष्ट २, ५ : २.
स^०-सुहृज्-जन- -नम् अण ४, ३, ३.
स^०-सूत्र- -त्राणि कौम् ३५, २४;
-त्रात् कौम् ४८, ४.
स^०-सुदोहस्- -हस् वीथौ १७,
२५ : २; २६ : २^०.
स^०-सूतु^०- -नव आश्रित २, ५, ३ :
२५; वीष्ट ३, ७, १८.
ससुवस्- ✓सत् द.
स^०-सैन्य- -न्याः अण २०, २, ८.
स^०-सोम, मा- -मम् अणाय ६, ३;
-मस्य वृदे ३, १२४; -माः वीच्
२५, २१; -मे शाशौ १, १२, २६;
-मेन वापुशौ ३, ४१ : २७; ३६.
स^०-सोमकण्ठी- -थी वीथौ २६,
३२ : २२.
✓सस्त^० पाषा. भ्वा. पर. गती.
✓सस्त^० पाषा. भ्वा. पर. स्वन्ते.

a) = अण- । b) = वाच्यनिकञोत्विष्- । c) = ३स- । d) = १स- । e) वत्त. ।
f) तपा. ससंधिभिः <> ससंधिकैः <> द्विष्ट २, १०, ७ सुसंधिभिः इति पाठे. । g) उप. = सप्त-पञ्चा- ।
h) = सप्त-अधिकादिदिन- इति क्वा का क्म. । i) = संसुंभम् । j) उप. द्वय. । k) उप.
ससमुद्र<>समुवर्ण इति पाठे. । l) सप्त. आणश्री २३, १०, १० स ससमुपहवः इति । m) = क्षपह-विशेष- ।
n) परस्परं पाठे. । o) वैष १ द. । p) वत्त. >द्वय. उप. = २जनम् । q) उप. = क्षोपधि-विशेष- ।
r) उप. वत्त. । s) च सुग^० इति जीर्व. । t) उप. = पुत्र- । u) स मुन्ने षः इति त्रिपदाः शोषः
(द्व. उपा. वी १, ५८२) । v) उप. = सुवर्णाभ्याम्- । w) सप्त. भाष्ट २, ५ : २ ससुपिराणि इति ।
x) उप. मलो. क्म. ।

स^०स्तनित- -न^० अण ५२, १, १२
 स^०स्तुतशस्त्र- -न्य आपधौ १४,
 २, ११.
 सिसृत्प- -न्य प्राण १, ५, २९^०.
 स^०स्तोत्रीय- -न्य निम् ४, १३:
 ३३, -न्य निम् ४, १३: १७,
 -वाणि छुम् २, १४: १७, ३,
 ११: १२, -वे छुम् २, ९: २६
 स^०स्तोम- -मे छुम् २, १४ २०.
 स^०स्त्रीक- -का आपधौ ८, ५,
 ५१, १७, १; द्विथी ९, १०. १०;
 द्विथी ५, २, ३४, ५, २.
 स^०स्थान- -वा ६, ३, ८५, -ना तैषा
 १४, ९, श्रत ३, ४, २, -नम्
 श्रा १४, ५२, तैषा ५, २७, ३८,
 ९ २, -नान् श्रा १४, ५०, -ने
 श्रा २, १५ शीन ३, ३०, वाणि
 २, ४०, -नेन श्रा १३, १६;
 आशि ४, १, पा ५ ४, १०.
 सस्थानत्व- -न्यम् पावा २, ४,
 ५४, -स्वात् पावा १, १, ४८,
 वाणि २, ४०
 स^०स्थालीपाक- -के कौथ १, ४, ३,
 ५, १३.
 स^०स्ति^१- -स्ति अण ४८, १००^३, वा
 ५, १^३.
 स^०स्ति वम- -नम् आपधौ १, १७,
 ७, वीथी १, ४ ३०, ५ १०,
 माधौ १, १९, ६.
 स^०स्नेह- -हम् विष २२, ७०
 स^०स्न्य- -स्न्यै: माधौ २, १२, ८.
 सस्य^२- -वाठ ४, १०९, -स्न्यम् आधौ
 २, ९, २, वाधूथी ४, १२: १२,

द्विथी; वा ९, ४१^०, ४२^०, -स्या
 अण ६४, ३, ६; -स्थानम् अण
 ७०^३, १८, ४; -स्यानि अण ७१,
 ७, ६, -स्याय वाधौ ३, २, १,
 ३०^३, -स्ये आपध २, १२, २४,
 द्विथ २, ५, १५५, -स्येऽ-स्ये
 माधौ ६, १८, १७, भाण ३, ३ ३,
 -स्येन अण ७०^३, ६, ३.
 सस्य-क- -पा ५, २, ६८
 सस्य-गो रथी- -स्त्रीणाम् अण ६०,
 १, ३.
 सस्य-नाश- -शाम् विष ५, १४०.
 सस्य-प्रदान- -नेन विष ९२, २०.
 सस्य-मुष्टि-प्रहण- -श्लेष शंथ १४६.
 सस्य-र(त्>)वी- -वी अण ५७,
 १, ६, -तीम् माधौ ९, १८, १०.
 सस्य शृदि- -द्वि अण ६४, १, ८
 सस्यशुद्धि-कर- -राणि अण ६५,
 ३, ७.
 सस्य-शैकृत्- -से अण ७०^३, ६, ४, ७, १
 सस्य-सपत्ति- -पति: अण ५९, १, ६.
 सस्य-सपद्- -न्यत् अण ५९, १, ८.
 सस्य-सप(त्>)सा- -सा अण ४,
 २, ११.
 सस्य(स्व-अ)पदारिन्- -री शंथ
 ३७८, विष ५ ८०.
 सस्यो(स्य ङ)पषाड- -न अण ७०^३,
 ७, ५, ७१, ९, १, ११, ५, -ताय
 अण २७, २, ३, ७०^३, ७, १७.
 सस्यो(स्य-उ)वेत्- -सम् विष ३, ४.
 सस्योपतिष्ठति अण ७१, १९, ६.
 सस्त्रि- ✓षट्
 सस्त्युत्- -स्त्युत् माधौ २, ५, ४,

२७^३; -सुप्त. विष २, १३^३
 स^०सु(व>)या- -याम् वीथी १,
 १३-१४: १, २० १, २, १३: १,
 १८: २८x४, माधौ, -वे आपधौ
 ३, ८, १, माधौ ३, ७, १.
 सस्युपी- ✓षट्
 सिसृत्वा^३- -वा वीथ ३, १२, १२.
 स^०स्यन, ना- -ना: अण ५८^३, ३, १,
 ४, १३, -नानाम् अण ६४, ४, ४,
 -ने: अण ६४, १, ७, २, १.
 सिसृत्वा(ः)^३ अण ४८, १०७, निष
 ३, २५, श्रा १, १०३.
 स^०स्वर- -नम् श्रा १, १०७,
 वाणि २, २९
 स^०स्वर- -र. वाणि २, ३०, -रम्^३
 जैथीका ४२, १००, १६४,
 -रा: वाणि ४७
 स^०स्वाहाकार- -रा आपधौ १४,
 १५, ३, द्विथी १०, ७, २५, -राद्
 द्विथी १०, ७, १६.
 स^०स्विष्टकृत्- -रकम् वीथी २७,
 १९ १७, -स्वस्व वीथी २६, ६,
 ११
 ✓सह^३, > राह^३ पावा. अण
 आत्त, चुरा उम. मर्षणे, दिवा
 पर चक्यर्थे, सहते वीथी १८,
 ९ २९, आशि १, ४, १:
 १४^३, अण १, ७, ५, पावा ५,
 २, १२२, स^०सहस्य वीथी १७,
 १२, ४, काधौ १५, २, ५, वीथी,
 वैशाधौ ६, १^३, आपधे १, ५,
 १^३, आण १, ७, ७^३, कौथ १,
 ८, २०^३, वाणि १, १३, १२^३,

ग) = षट्-१. ब) पामे वृ २४८३ ङट् द. c) = षट्-१. d) वेप १ द. e) ना इति शिबट १
 f) सुश्रव इति षट् १। सवा तैसा ३, ७, १३, २ सुश्रव इति पामे । g) वाठ १ सस्वधम् इति शोध
 (द्व प्रकरणम्) । h) वा. निवि । १) वा ४, २७ श्रावा ९, ३ श्रावा ५ ३० शीव ३, १, ४, ७० पा ३, २, ४६, ६३,
 ४, ६५, द. ३, ११२, ११६, ७, २, ४८, ८, ३, ५६, ६२, ११६ पराश्रव द. । j) वा ११, २१ पराश्रव द. ।
 k) पामे वेप १ सुश्रव मा १३ २६ दि. द ।

आसिष्ट^१ १, १, २ : २५; ५, ३ : १७; काष्ठ २५, २८^१; वीष्ट^१ १, ४, २४; २, ५, १०; माष्ट^१ १, ८ : १२; १६ : ९; लिष्ट^१ १, ४, १; १९, ८; शुभ १, ५९, ०^१; सहावै आपमं १, १५, ५^१; सहैमहि निम् ४, १३ : २७^१.
 षसाहाम ऋषा ९, ५२; शौच ३, १५; ४, ८८.
 षसासहः आपथी १४, ३३, ६^१; हिथी; षसासहाम वीथी ७, १३ : २५^१; ऋषा ८, ४१.
 षसाहै आथी ६, ३, १^०; माथी ९, ५, २^०; ऋषा ९, ४५; ५०; सासाह ऋषा ९, ५०^१; षसाक्षीय कौम् ४७, १६; वर ३७, १, ८; साहिपीमहि ऋषा ९, ५१.
 षसक्ष^१ - ०क्ष आपथी १०, ३, २; वीथी १४, २१ : ३०; माथी.
 षसक्षनि^१ - मिः आपथी १६, १८, ७; वैथी १८, १६ : २; हिथी.
 सह, हा^१ - वा ३, १, १४०; -हम् शंभ १३६ : ५४; -हा वप ५, १, ५; -हाम असा २१, १; -हाप वीथी ७, १६ : २६.
 षसदीपस^१ - यसा आपमं १, १५, ६^१; -यसे वीम् ७८, १०; -यान् आपथी १७, ६, १; १९, १२, १०; वीथी.
 सह^१ -> सह<>हा-वर्^१ - न्वात् ऋषा ९, १७^१.

षस<>हा-वर्^१ - वा आथी ३, ७, १४^१, १०, ६, १६; -वानम् वा १०, २८^१.
 षसह्व- -हन्तः ऋषा ७, ४६; -हन्तम् वीथी १३, ५ : १६.
 सहष्यै भाषि ४६^१.
 सहन- पाग ३, १, १३४; -नम् वा ८, १५; -नात् वा ३, १८.
 सहन्त^१ -> षसहन्त^१ - ०न्त्य वीथी १४, ५ : ४९^१; -न्त्यः वीथी ३, ११ : १२.
 षसाहन्त^१ - ०न्त्य ऋषा ३, ४, १^०; -न्त्याय वीथी १३, ५ : १४.
 षसहमान, ना- नः आपथी १७, ६, १; हिथी; माष्ट १, १४, १६^१; -नम् वीथी ३, १६ : ६; कौम् ९२, ३; अषाय; -ना वीथी १०, ३२ : १०; १७, ४१ : ७; माथी; आपमं २, ७, २५^१; पाष्ट १, १३, १^१; आसिष्ट १, ३, ४ : १^१; माष्ट २, २१ : ३^१; -नाः साथी ४, १, ५; -नाम् आपमं १, १५, ६, असा २१, ५; -नाय वा १०, ६; -०ने आपमं १, १५, २^१.
 सहर्^१ - पाग ५, १, १३०^१, ४, ३८^१; -र्दः आथी २, ५, १२; ४, १२, २××; हाथी १, १, ३३^१××; १८, ३, २^१; आथी १७, १०, १६^१; आषथी; सु २२, २६; अष ४८, ७५^१; १०३; निप १, १२^१; २, ३;

वा ११, १६^१; -र्हसः आथी ४, १२, २; माथी ५, १, ३, १५; आपमं; ऋषा २, ८, १०२^१; वा ५, २५^१; ८, २^१; ऋषा ४, ५९; ऋषा ३, २५; तैषा ८, २८; -र्हसः दाथी १, ४, ७; साथी १, ४, ४; -हसा^१ आथी २, १९, २४^१; आथी ४, १५, १५××; षसापथी ४, १५, १^१××; वीथी; माथी ४, २१, १^१; हिथी ६, ४, १०^१; पाग १, १, ३७; ५, ४, ३८^१; -र्हसे आथी ३, १२, २३; हाथी १४, १६, ९; ३१, ५, ४, २; आपथी; हिथी ५, ३, ४६; १५, ३, १०^१; -र्होमिः आथी ५, २०, ६; हाथी ३, २०, ४; वा ६, १६; १७.
 साहव^१ - पा ५, १, १३०, ४, ३८; -सः विप ४, १४^१; -सम् आपम २, १३, ७; विप २, ३, ७; वीथ १, ४.
 साहसिक- पा ४, ४, २७.
 साहसिक-दण्डन- औ विप ५, १९६.
 साहसिक- नवात् निम् ७, १० : ११.
 षसहसा-वर्^१ - ०पन् आथी २, १०, ४; वीथी १३, १२ : ७; माष्ट २, १६, ३.
 सहस-कृत्^१ - कृत्वा हाथी २, ११, ३^१.

d) पामे. वैप १ सहस्र मा १३, २६ टि. द. । b) पामे. वैप १ सप्तसहस्र टि. द. । c) पामे. वैप १ कौ २, ३०४ टि. द. । d) वैप १ द. । e) नाप. (महत्. ओषधि- मार्यवर्षि-मात्) । f) = सप्त. ऋ १०, १४५, ६ । शौ ३, १८, ६ प्यती इति पामे. । g) पामे. वैप १ ऋ ७, ४५, ३ टि. द. । h) पामे. वैप १ ऋ १०, १७८, १ टि. द. । i) पामे. वैप १ ऋ ६, १६, ३१ टि. द. । j) सप्त. काष्ठ ३०, ३ सहमानः इति पामे. । k) ११२१ j) अपि द. । l) पामे. वैप १, १६१८ b) द. । m) द. पागम. । n) पामे. वैप १ स्वः वी ३, १, ३ टि. द. । o) पामे. वैप १, १५९५ d) द. । p) सस्ते इति पाठः १ पामे. वीपः १) = १४८८- । q) प्रविषा किति. । r) पामे. वैप १, १५९५ d) द. । s) = १४८८- । t) पामे. वैप १, १५९३ टि. द. । (दं. पूरं त्यलम्) । u) रवापार्थे ऋष प्र. । v) = १४८८- । w) पामे. वैप १, १५९३ टि. द. ।

सहस्र-सूत्र^१ - ०० त शेषि ८९
 सहस्र तम- ग्ना वीस ५, २५
 ईसहस्रस्व^{१०} - ०० स्व वीथी
 ३९, ९, वीस १, ४, ११, -स्वा
 काथी १७, १०, १६ आथी ८,
 १२, ५, १७, २, १०, वीथी,
 -स्वम् आथी ४, १२, २०, स्व
 वीथी १३, ३४ ५, -स्वाय
 वीथी ७ १६ २९, आथी ८,
 १४, ६, हिथी ५ ३ ४६, -स्वेन
 श्रुथा ७ ३७, -स्वै आथी ९
 ५२ गाथी १४, २७, १२.
 सहस्र मत्- -वत् आथी ४,
 १२ २५, या ३ १०, -वन्त
 काथी २ ११, २५, -वन्तम् या
 १०, २०५, -वान् आथी १७,
 ६, १५, १९, १२, १०, वीथी १९
 ३ २६ गाथी हिथी १२, २, १४^१
 ईसहस्रवतो - ०० ति आथम
 १, १५, २, -ती आथी ४, १२,
 २, वीथी १७ ४१ ७, आथम
 सह सुत् - -वे वृदे ७, ६१
 ईसहो जा^१ - -जा आथी ४
 १३, ७, ७, ७, ८, गाथी १०, ३,
 १५
 सहो दा^१ - -दा अथय ६, ३५
 सहसाम^१ - पाठ २ ८७, -न कात्
 ३०, ३१
 सहिप्र- पा ३ २, १८४
 सहिर- दिन अथ १, ६, ७, १, ७,

४, ७
 सहिष्णु- पा ३, २, १३६, -०० णो
 विष ९८, ९५
 सतुरि^१ - पाठ २, ७३, -रि अथा
 ३, ४, १५, -ईरि वीस ५, २,
 तैत्रा ४ १५
 ससदा- पा ३, १, ९९
 ईसहस्र^१ - -हान् आथी १७, ६,
 १, हिथी १२, २, १४
 साह- साह पा, पावा ८ ३, ५६
 साह सूत्र- -स्वय शीव २ ८२
 ईसाह^१ - -ह शीव ३ ७
 साह^१ - -दा पा ६, ३, ११३
 साहवै पा ६, ३, ११३
 साहवा पा ६, ३, ११३
 ईसासहि^१ - पावा ३, २, १७१,
 -ईहि^१ आथी ६, २, २, २१^२,
 वाथी २, २, २, १^३, -हि द्राथी
 ११, १, ५, लथी ४, १, ५,
 वैसाथी, अथा १६, १७, -हिम्
 शुप्रा ३ १२२
 सासहस्र^१ - -हान् शुप्रा ३, १२९५^१
 साह^१ - पा ३, १, १४०^१, -दा अथा
 ९, ४८
 साहव^१ - -हत् अथा ९ ४८५
 साहय- पा ३, १, १३८
 ईसाहस्र^१ - पा ६, १, १२, -हान्
 आथी २, १, २६, अथा ९, ४९,
 -हान् अथा ९, ४६^१
 ईसीसामा^१ - -गा वीथी १३ ५

१५
 ईसहान, ना^१ - -न अथा १६ ७८,
 -नावा आथम १, १६, २
 सोह- सोह पा ८, ३, ११५
 सोव- पाव ३, १, १८, ५ २, १११,
 ६, ३, १७०, -हम् पा ४, ३, ५२
 सोह-व(तु>)वी- -वीसु निव
 ४, १३ : २३
 सोहव(तु>)न् नामव^१-
 म निव ४, १३ २३^१, ६६
 १४, १७.
 सोह सह->हीव^१- -वम् निव
 ७, ५ ३९
 सोहा(ट अ)मित्र^१->सोहा
 मित्रि- वी पावा ७, २, १
 ✓सोहाय पा ३ १, १८
 सोविन्- पा ५, २, १३१
 सह^१ आथी १, ३, २३५^१ x x, काथी
 काथी १२, २, ८^{१०}, आथी २०,
 १८, २५^१, वीथी १५, २९,
 ३५^१, वाथी १, ७, ५, २२^१,
 ३, १, ३, २१^१, हिथी १४ ४,
 ७^१, १६, १, २९^१, आथम
 २, ११, १६^१, १८, १०^१, वीथ
 १, १०, १४^१, आमिह २, १, ३
 ३^१, ५ ८ ११^१, काय ३३
 २^१, वीथ २, ७, १९^१, भाथ
 १, २२ १३^१, २ ८ ५^१,
 दिव २ ३, १५^१, ८, २^१, पा १,
 १, ७१, ४, ५७ x x, सहस्रसह

a) वैष १ द । b) विष, नाप (वीव-भास-) । c) पामि वैष १ श ३ १६, ४ टि द ।
 d) द-न-नाम । e) = अमि-। उप = पुन-। f) वैष १ १७२३ टि द । g) वृ २६२५ टि द ।
 h) स्या काठ ३९, ११ सासहवान् इति पामि । i) पामि वैष १ सासुद टि द । j) पामि वैष १ सुहसापाव
 टि द । k) तु अथव । l) पामि वैष १ सास्राम की २, २४३ टि द । m) = राम विशेष । n) नाम
 इति पाठ १ पामि शोध ३ । o) वस । p) सहव पामि वृ २५९९ टि द । q) पामि वैष १, ९६३ टि द ।
 r) पामि वृ २५५८ टि द । s) सह विषहृदिदम् > सप्र आथी १८, ६, ११ सामान तु विषहृ इति पामि ।
 t) सासह इति पाठ १ सह, सह इति शोध (तु माथ ४ ६, ८, १५^१) । u) पामि वैष १ सतु क ५, ७८, ८
 टि द । v) पामि वैष १, ७९८ ७ टि द । w) पामि वृ १८९९ टि द ।

शोभो १६, ७, ९
 ३सह- हृष पा ६, ३, ७८, ९५,
 पावा ६, ३, ७७, -है पा ३, २,
 ९६
 १सह मय(भ>)भा^० -मा आधौ
 १७, ७^३, बाधौ १, ११, १^२
 १सह क^० -का कौष्ठि ३१
 सह-कारि^० -रम् द्राष्ट ४, १, ११
 सह-कारिन्- -रिण द्राष्टो ३ ४,
 २९, लाधौ १, १२, १५
 सहकारि प्रायण- न्य बौधौ
 २२ १६, -या बौधौ २४,
 १८. १६
 सह✓क पा १, ४, ७४^०
 सह कृषवन्- पा ३ २, १६
 सह क्रम्य- न्य ऋषा १८, ३६
 सह-गृह^० -ह^२ बाधौ १५, ४,
 ४०^६
 सह गो(प>)भा^० -या वैताधौ
 ३८, ५
 सह ग्राह^० -हम् सु १४ २, १५, ५
 सह घर- नाणि द्राष्टो २ ४, २४
 सहचरी- पा ४, १, ४१^०,
 साहचर्ये- नात् ब्रूे १ १९×४,
 या २, २०×४, पावा १, २, ५३,
 १४, -ये ह्युष ८६ ३
 साहचर्यं ज्ञान- न्याय या २,
 २८
 १सह-चर्या- र्या हिष २, १,
 २०^१
 २सह चर्या^० - १^० आसिष्ट १, ५,
 ४ ४०, बौष्ट १, ५, १, भाष्ट
 १ १७ १०, हिष्ट १, २४, ५

सह-चारिन्- -रिणो या ७, २९
 सह घणाल^० - लम् बाधौ १, ६,
 ३, ८.
 १सह छन्दस्^० - -हृष ऋषा ६,
 १२, शुभा ४, २६
 सह ज, जा- १जम् पाष्ट २, २,
 ११, बौष्ट २, ५, ७, -जा वाष्ट १८,
 २१, -जान् बौधौ १४, २०
 २०^०, -जै विष ९६, २९
 सह जग्धि- शिम् या ९ ४३
 सह-जात- नम् वैष्ट २, १८ १६,
 -तानाम् या १४, १९^१
 सह जानि^० - नि (नि^२) बौधौ
 १८ ४६. १०
 सह जोषण^० - न् या ८, ९, १२,
 -णाः या ११, १५
 सह-त्व- न्वम् प्रायण २, १४, १७,
 हिष २, ३ १७, मीस् १०, २
 १७, ११, २, ५७, -त्वे मीस्
 १०, ८, २०, ११, ४, १५
 सहत्व कर्मन्^१ - मीम् प्रायण
 २, ११, १७, हिष २, ४, ३२
 सह-नन्द- न्दात् बाधौ
 २७, ११, २८
 १सह-दावु^० - तुम् जाधौ ३, ८,
 १ बाधौ ३, ४
 सह-द्वभ^० - न्वम् अष्ट ३ ११
 सहदेवी^० - नो अष्ट ५, १, ५
 साहदेव्य^० - न्वम् ऋष २ ४,
 १५
 सह धन^० - न् माधौ १ ६, ३, १
 सह धर्म- न् मं बौध १, ११,^१
 सहधर्मं चारि(र>)णी- नी।

वैष्ट ३, २ ६
 सहधर्मं चारिणी सशोभ- ना
 गौष ८, १५
 सहधर्मं द्रव्य- न्वम् हिधौ ३,
 ८ ४१
 सह धान्य^० - न्व कौष्ट ३, ३, ६०,
 शाष्ट ३, ४, १
 सह ध्रुव^० - न्वस्य ऋषा ६, ४५
 सह नन् विवमान- पूर्व- न्वात् पा
 ४, १, ५७, -वैभ्य पावा ४ १,
 ५५
 सह निहस- न्म बाधौ २६, ३२
 ७, -सस्य बौधौ २५ १ २३
 सह निर्दिष्ट- हृष पावा ६, १,
 १५४
 सह-न्यस्यवर्^० - नाणि बाधौ १, ७,
 १, ३, ५, २४
 सह पक्षीक^० - का आधौ ७, २१,
 ६, २७, १६×४, बाधौ,
 सह पला(श>)या^० -ना माधौ
 १ ५, १, २४, ४, ७, ३, बाधौ
 १, ४, १ १०
 सह-पवित्र^० - न्वम् बाधौ ३ ३, ६
 सह पीथि^० - तिम् या ९, ४३
 सह पुत्र- न् माष्ट १ १८, ३
 सह पुरप- न्वम् बाधौ १६ १४,
 १८
 सह प्रवृत्ति- से बाधौ २५, ३,
 २७
 सह प्रयोग- न् मीष् ११, ४,
 १८, -मस्य माष्ट ४ १, ३५
 सह प्रमीत- न्वयो आसिष्ट ३ ७,
 ४ २४

a) वस । b) स्वार्थे प्र । c) = आच-वृत् । d) इ पाठम् । e) उप = दार- । f) पाठो
 घ २४१२ ऋ द । g) सगृहम् दात मूत्रो । h) वैष्ट १ ६ । i) तथा प्रायण २, १, २१ सहस्यया इति पाठे ।
 j) तथा वैष्ट १, २१ १६ न्दात्वा इति पाठे । k) पाठ ? यदि शोध (इ सक्तुं टि) । l) वम् ।
 m) व्यण । n) = श्लेषि विशेष । o) न्वय इति पाठ ? यदि शोध (इ शाष्ट) । p) उप = पच-हृक्त्
 (इ बाधौ १, ७, ३, १७) । q) ह्युष्णोय समास ।

सह-प्रवाद-दाः श्रुता ९, ५.
 सह-प्रसव(र)रा-राम् वाधौ
 १, ३, ६, १.
 सह-प्राजापाय-रवम् वाधौ ३, १,
 २, ३०.
 सह-भक्ष-क्षाः काथी ९, ३,
 १८; वीथी ७, ८; ९; १४, ५;
 १०.
 सह-भरमन्-रमाम् आधौ ३,
 १२, २५; आद्य ४, ६, २.
 सह-भाष-वे पावा ५, ३, ४४.
 सह-भूमि-मि शाधौ १६, १५,
 २०.
 सह-मदन-नम् या ७, ३०.
 सह-सन्ध-सन्ध माधौ ३, १, ५.
 सह-भरण-जे वैद्य ७, २; ३.
 सह-मूल-रम् वा ६, ३१; -छैः
 वाधौ १, २, १, ३२.
 सह-यजमान-पत्रीक-काः वाधौ
 १, ६, ६, १३.
 सह-यज्ञ-साः आधौ ४,
 १२, ३.
 सह-याजमान-नः वीथी २०,
 २; ६.
 सह-युक्त-क्ते मा २, १, १६;
 पावा १, ३, ५५; २, ३, १९.
 सह-युक्त-सुक्तम् या ९, १४.
 सह-युधन्-मा ३, २, १६.
 सह-रक्ष-क्षाः शूरे ६, १६०.
 सह-रस(मा)न-नम् माधौ
 ५, २, १२, ४०; -नाः माधौ ५,
 २, १२, २४.
 सह(ह-श)व(म)भा-भाः -भाः
 माधौ २१, ७, ११; द्विथी १६,
 ३, ३०, काथी ९, २, ४, ४, ४, ४, ४, ४

३, ६, ४, ४; साम १, ६, २०, ४.
 सह-वचन-नम् आपथ १, १३,
 १०; द्विथ १, ४, २४; पावा १,
 १, ७; २, १, ४; ६, १, ५; -नाद्य
 पावा १, १, १.
 सह-क(स)स्ता-रस्ता आपथौ
 ४, १०, ७; माधौ; -साः गोद्य
 ३, ८, ४.
 सह-वसु-सुम् श्रुता ९, २, १.
 सह-वाच्य-रव्येयु शाधौ १, ११,
 २६.
 सह-वाह-वाह-वाहः श्रुता ९, २, १.
 सह-वाहन-नेष्टु माद्य १, १२, ४, ४.
 सह-विष्क-व्यम् श्रेय १, ४;
 ७६.
 सह-विहार-रः माधौ १, ६, ३, ४;
 ६, १, ४, ३२.
 सह-वीर, रा-रम् काद्य २६, १२;
 श्रुता ९, २, १; -राम् आदिष्ट २,
 ४, १; १९; द्विथ १, २७, ७०.
 सह-धीहि-द्वि वाधौ २, १, ७, १.
 सह-शब्दा-शब्दा आपथ २, १,
 २१.
 सह-शब्दा-शब्दा श्रेय १, २, १;
 १६, ४.
 सह-शक-शक्याद वारी १, २, १,
 ३०.
 सह-शातिप्र-श्रम् वीथी २०,
 २८; ६.
 सह-शा(सा)क-शम् वाधौ
 १, ३, ६, ८.
 सह-शिरस-शम् काद्य १, १, १६.
 सह-शिरस-शकी द्विथी १०, ५,
 २७
 सह-श्रुत-श्री आपथी १८, ११,

२०.
 सह-श्रेय-श्रेय आपथ ३, १,
 १६, ४.
 सह-संवा(ज्य)ज्या-ज्याः
 वीथी २८, १; २८.
 सह-मा(मन्)मनी-मनी
 आधौ ४, १२, २.
 सह-सूक्तवाक-कः वीथी ४,
 १०; २३.
 सह-सो(म)सा-साः वीथी
 ८, १६; १६; २६, ३१; १७;
 वैथी १६, २०; १५.
 सह-स्वोम-माः श्रुत ४, ३३.
 सह-स्यन-नाद्य वा ७, २४.
 सह-स्यन-स्यनैः आपथी २, १३, १.
 सह-सुक्त-सुक्ता आपथी २, ८, ३;
 वीथी १, १३; १०; माधौ.
 सह-सु(व)वा-वाम् वाधौ १,
 २, ७, १.
 सह-सुव-साम् कौद्य १९, ३०.
 सह-सुव-सम् वा १, ८, १०.
 सह-सुव-सम् वा १, ६, ६.
 सह(ह-म)मि-मिः माधौ ३, १,
 ३५; वाधौ १, ५, ४, ४, ४
 सह(ह-म)मि-मिः आपथी २४,
 २, ३९.
 सह(ह-म)मि-मिः आपथ २,
 ११, ५; द्विथ २, ५, ७, ७.
 सह(ह-म)मि-मिः आपथी ५, ५, ५,
 २, ५, २२; -ज्या आपथी ५, ५, ५.
 सह(ह-म)मि-मिः आपथी ५, ५, ५,
 पावा ४, १, ५, ४.
 सह(ह-म)मि-मिः आपथी १४, १, ३;
 वीथ १४, १९.

१) सुन्दरीयः समाप्तः । २) वेप १ द. । ३) = सप्त. मा २७, ६ प्रम्. । का २९, १, ९ थाम् इति
 पवि. । ४) पवि. पृ २६२७ इ. । ५) वस. । ६) पवि. पृ २६२७ इ. । ७) वस. समाप्तान्तः
 शब्. म. (पा ५, ४, ७७) । ८) वस. इति दासिः । ९) वस. > पत. (ड. केयटः) ।

सहाध्यायि-गामिन्- -मि विभ
१७, १२.

सहा(ह-अ)नुवाचन- -नम् काठश्री
१३४.

सहा(ह-अ)पत्य- -स्यात् श्रापध
१, ५, ३; हिथ १, २, ३; -त्ये आपध
१, २१, ८; हिथ १, ६, ३८.

सहा(ह-अ)पवाद- -देवु श्रया ११,
६८.

सहा(ह-अ)भ-भार-स्वमित्-
-ते अप ६३, १, १०.

सहा(ह-अ)मिक्षा-व(वा >)प^०-
-येन वाधौ १, ७, ५, १९.

सहा(ह-अ)मिसा-वपा^०- -पाम्
वाधौ १, ७, ५, १७.

सहा(ह-अ)प^०- -वान् विभ ३, ७१;
-यानाम् गोश्र ४, ९, १०.

साहायक-साहाय्य- पावा
५, १, १३३.

✓साहाय्यकाम्य >

पवा- -म्यमा वृदे ५, १३७.

साहाय-काम- -मः गोश्र ४, ८,
२५; द्राश्र ४, ३, ९.

साहाय-ता- पावा ४, २, ४३; -ता
विभ २०, १९.

सहाय-वच्- -गान् अप ६८, ४, ६

सहाय(य-अ)र्थ- -यम् विभ
२०, ३८.

सहा(ह-अ)धतन- -नम् श्राश्र ४,
६, ३.

सहा(ह-अ)पिन्- -यिनाम् द्राश्र ४,
३, १४.

सहा(ह-अ)सन- -नम् वीध १, २,
३५.

सहे(ह-इ)नि-करण- -गम् उम् ४,
३; -णानि श्रया १०, ७; -णे
उम् ७, १८.

सहो(ह-इ)नि-कार- -नाथि ऋषा
११, २५.

सहो(ह-इ)क- -का श्रया १६, ५३.

सहो(ह-इ)क^०- -कः वाध १७, २६७;
२७; १९, ३९; वीध २, २, २५७;
-कम् वीध २, २, ३२.

सहो(ह-उ)धतन- -नम् वीधौ २६,
२९; ३.

सहो(ह-उ)दकुम्भ- -म्भः गोश्र २,
१, १३; द्राश्र १, ३, ५.

सहो(ह-ओ)दन- -नम् अप १, ४८,
१^१.

सहो(ह-उ)द(य >)वा- -वाः ऋषा
२, ५४.

सहो(ह-उ)व(या >)ध- -धः ऋषा
१, ६७.

सहो(ह-उ)पर- -रः वीधौ २५,
११; ६.

सहो(ह-उह >)स्- -पावा ४, १, ७०.

सहो(ह-ओ)दन- -नम् ऋषा १३, १^१
२-२सह- ✓सह द.

३सह- सह द.

सह(स)सा^०- -साभिः वीधौ
१०, १६; ११; १७; ६; वीधौ
१८, ११; ५; वीध २, १, ९.

सह-श्रयमा- , १सह-क- सह द.
२सहक^१- (>साहायन- वा) पाश्र

४, २, ८०.

सह-कार- प्रथ. सह द.

सहन्- ✓सह द.

सह-वेद्य- , देवी- प्रथ. सह द.

सहपथै, सहन- ✓सह द.

सह-हनन- -वान् शोधौ १७, ४, १;
-नौ शोधौ १७, ४, २; ३.

सह-निरुत्- प्रथ. सह द.

सहन्त-, -पत्य- प्रथ. ✓सह द.

सह-पञ्चसंचर- प्रथ. सह द.

सह-हरिण- -गः अप ७०^१, ६, २.

सह-हर्ष- -र्षः वाश्र १०, १.

सह-हर्षा- -र्षीम् वाश्र १०, १.

सह-हविस्- -विषो हिथौ २१, २,
४६.

सहस्र-, सहस्रान- ✓सह द.

सहस्राम^१ आपमं १, ११, ४; वीध
१, ९, ३.

सहस्राहम्^१ वाश्र १६, १.

सहस्र^२- पाश्र २, ४, ३१; ४, २, ३८;
-सम् वाधौ २, ११, ४^१; ७, ४,
३^१xx; दशौ; वाश्रौ २२,
१, १५; हिथौ १७, १, १७^१; वीध
३, ५, २^१; अप ४८^१, ६६^१;
विभ ३, १^१; वा ३, १०^१;
-सम्-सम् वाधौ २०,
१५, ९; वीधौ १६, ३२;
७; -सस्य वाधौ १७, १२,
२७; वाश्रौ १७, ११, १;
२२, १५, १५; वीधौ; -ससा
वाधौ ८, ३, १०; वीधौ ३,
२, ५xx; हिथौ १७, ९, ४२;

a) वस. > वन. > गलो. वस. । b) वस. > वन. । c) वस > वन. । d) उप. कर्तारि कृत् ।

e) = (अन्तर्वत्त्वा विवादितायाः) पुन- । f) वरतरं पाभे. । g) = वस- । h) = (हंससम्प्रदायी) कृत्- (द्व. ले ४, २, १, ४) । i) सिद्धि- इति [पक्षे] भागमा. पाति. । j) पाठ १ माश्र १, १४, ४ सहमानः इति, काश्र ३०, ३ । सहसाकः इति पाभे. । k) सहसायम् इति ईतसुक्ता (भू. [XX]) गोपः । l) वैव १ द. । m) पाभे. वैव २, ३३. यत्नम् मास ११, ४, २. ७ डि. द. । n) 'सह' इति पाठ. १ यनि. शोधः (द्व. वाश्रौ.) । o) पाभे. वैव १ सहस्रम् मे ४, २, ९ डि. द. । p) = सह- ।

-सालाम् भाष्यो १८, ८, ७^१,
 द्विधौ १७ १, २३, अथ २ ६, ३,
 वाच २९ १८, -सामि आधौ
 २ १, ९, ४, ३xx, शोभौ, -साम्
 शोभौ १५ २३, १^१, भाष्यौ
 २२ १७, ८, माधौ, -साम्
 द्विधौ १४, १, १९, -साम्याम्
 अथ ४६, ९, १९^१, -साम्य
 वीधौ १६, २७ : १६, -साम्य
 वीधौ १०, ४७ १०, १९, ४
 २२, माधौ, -से शोभौ १५,
 ११, ३, वाधौ १५, ६, ६xx,
 आपधौ, -सेन शोभौ १६, १०,
 ९, १८, १८, आधौ १०, २६,
 ९xx, वीधौ, वा ४, ४, १३५
 साहस्य^१-सैम ६, १३, पा ४, २,
 ३८, ५, १, २७^१, २, १०३,
 पालाय २, ३, १८^१, -स
 आधौ ९ ४, ७, शोभौ ६, ६,
 १६, वीधौ, वाच २६, ९, विष
 ५५, १९^१, -सम् काधौ
 २०, १, २०^१, आपधौ २, २१,
 ७^१xx, वीधौ, छुम् २ ३
 ३, गोण ३ ६, ५^१, -सस्य
 आपधौ ६, २५, १०^१, -सा
 आधौ ९ १, ७, वाधौ २२, २, ६,
 आपधौ, -सात् आपधौ १७,
 ४, ११, वैधौ १९, ५ ११,
 द्राधौ, -सान् आपधौ २०, २,
 ६, वीधौ १५, २ १, ४ ७,
 -से आपधौ १३ ५ ३, २२ १७
 ३, वाधौ ३ २ ५ १८ -स्यम
 माधु १ २० ७, द्विधु १ २४ ३^१

साहस्यी-स्यो भाष्यौ
 २२, १५ १, द्विधौ १७, ६, २४^१,
 -स्योम् वीधौ १६, २६ ११
 साहस्य प्रतिस्व- पा छुम्
 २, ३ २
 साहस्य वत् भाष्यौ १९, १२,
 २२, द्विधौ २३, २, ३३
 साहस्य य- यता वीधौ
 २५, ३० १४.
 साहस्य-नास () आधौ १०,
 १, १४
 साहस्य(स-२आ)स- सयोः
 वैयाधौ ३९, १९
 साहस्य(स-म)य- मत्वपो
 वैयाधौ ४०, ५, -स्ये वैयाधौ
 ३९, १८
 साहस्यो (स ड)सम- -जे
 निम् ३, ३ १९
 सहस्य काण्ड^१- षट्म् अथा १९,
 १, -सण्डेन^१ आपधौ ४, १२, ८,
 गाधौ ४, १८, ४, माधौ १, ३, ५,
 ८, वाधौ १, ३, १८, द्विधौ ६,
 ३, १७, ४, १०
 सिसहस्य कुण(प>)वा^१- वा अथ
 ११, १०
 सहस्य कृपस् () द्विधौ १४, १, ४०,
 आसिण्ड २ ६, २ २५, ८ २९,
 वीण
 सहस्य गु- न्यो वीधु १८ २१
 सहस्य-गुण^१- णम् विच ९३ ३
 सहस्य गुणित(त>) वा- ता मासि
 १६ १, मासि २ ८, २२
 सहस्य चिन्द्र^१- न्येण काण्ड १७, १

सहस्य ज(त>)सा- सा शीघ्र
 ४५४.
 सहस्य जाप- यात् अथ ३५, २, ६
 सहस्य-सम- -म हृदे ३, १७,
 -सा वीधौ २३, १२ ४
 सहस्यतमी- स्यी वीधौ १६,
 २४ : १३, २७ १५xx, -स्योम्
 वीधौ १६, २६ १, २७ १xx,
 लाधौ, -स्यो वीधौ १६, २२,
 १८, अथ १६, १, ४, ७, १४, १५
 सहस्य वत् () अथ ३५ ३, ५xx.
 सहस्य दृष्ट^१- दृष्ट वीधु १, ५,
 १३४
 सहस्य इक्षिण, गा^१- न आधौ १२,
 १५, ९, वीधौ ८, ११, १५xx,
 काधौ १३, ४, ८xx, २२, ११,
 १३^१, आपधौ, -णम् वीधौ २६,
 २० २, अथ ११, १, १३, -णस्य
 आपधौ १०, २६, ६, माधौ १०,
 १७, १३, द्विधौ ७, २, ५६, -णा
 काधौ २२, २, ६, २३, १, ६,
 द्विधौ, -णान् वीधौ १८, ४९
 १२, -णाम् आपधौ १४, २३,
 २, -णे वाधौ १३ ४, १४, हृदे
 ५, ३३, -णेन आपधौ २६, १३,
 ५, वीधौ १६ ९ १६xx, द्विधौ
 सहस्य इक्षिण(गा-अ)व(रा>)र^१-
 -रेयु वाधौ १३, ४, ४
 सिसहस्य दा- दा^१ काधौ १७, ५,
 १४, माधौ ६ १, ७, २७, वाधौ
 २ १, ७, ६
 सहस्य दितय- न्यम् श्रम ४, १
 सिसहस्य वा^१ आसिण्ड ३, २ ६ ५

a) वैप १ ३ । b) = मुदा परिमाण । c) सहस्र- इति पाठः । d) सहस्र इति जीव ।
 e) = (गोसहस्रमूर्ध्वार्ह) अश्व- । f) वाम वैप १ सहस्रम् मै ४, २, ९ टि ३ । g) सहस्रिय इति Mōht (ZDMG
 ५२ ८५) । h) सहस्रम इति पाठ^१ यन्नि शोध (त आपधौ) । i) वामे वैप १ सहस्रकाण्डन शौ २ ७, ३ टि
 ३ । j) वत् । k) नाम । वत् । l) वत् उप = ०दक्षिण । m) वचोरेण सधिरार्थ । *न द^१ इति वीस ।
 n) विन (यत्) । क्त > वत् । o) स्या *सदा <> स्यवा इति वामे । p) स्या *वा <> धारम् इति वामे ।

भा० २, १०; ६.
 †सहस्र-धा- -धा: द्विधौ ११, ७,
 ५५.
 †सहस्र-धा(रा>)०- -र. आपथौ
 ४, ११, ३०, १६, २९, १, भाथौ
 ४, १६, ३०; वाथौ १, १, ३, १६,
 वैथौ, द्विधौ ६, ३, ६०, -रम्
 वीथौ १, ३, १४; भाथौ, आपथं
 २, २०, ३५, -रस्य आपथौ ६,
 २५, १०, -रामि काथौसं ४ १६,
 -रे आपथौ १६, १८, ७, वैथौ
 १८, १६ ३, द्विधौ, -रेण वीथौ
 २८, १: ७, २: ७, कौसू २, ३४.
 †सहस्रवामानि^० द्विधौ १८, ४, २०
 सहस्र नोथ^० -भा. कौसू ८१, ४४.
 †सहस्र-परम, मा^० - -मम् वाप २३,
 ३५, -माम् वाप २६, १५
 †सहस्र-पद^० - -पाय द्विधौ ११, ७,
 ६७, १४, ४, ४०, ६, ८.
 †सहस्र-पाद- -दाय अप ३६, ९,
 १५, वैप ३, १०, ४.
 सहस्र पूग- -गाय काथौ २४, ५,
 २८, -मे काथौ २४, ६, १६
 सहस्रपूरण-गुरुपतिमरण-संबं
 ज्यानि- -न्य काथौ २४, ६, १५
 †सहस्र-पृथ^० - -व्य अथ ११, १
 †सहस्र(, रसा [कौसू]) पोप, पा^०-
 -पम् आपथौ १, १६, ८, ६,
 १७, ६६, वीथौ^० ३, ८ २४, ९,
 ३, ६, १५: ४, भाथौ, शोथ
 ३, १०, २३, आदिथ, द्विध १.

१८, ४६, -रस्य द्विधौ ६, ६,
 १६, -पाय कौसू ३, १३, ७४,
 १८, -वापै कौसू २४, २०,
 अप १८, १, ११
 सहस्रपोप-काम- -म काथौ ९,
 ८, १, ३.
 सहस्रपोप पुपि^० - -रि^० वैथौ
 २, ८: ७, द्विधौ ६ ६, १६
 सहस्र पोपस^० - -पसा आपथं १, ८,
 ७.
 सहस्र प्रका(र>)सा^० - -रा कौसू
 १०६, ७.
 †सहस्र बाहु^० - -हु वैताथौ ३७,
 १९, गोथ ४, ५, १७, द्राथ,
 अथ १२, ६.
 सहस्रबाहु-याम सारस्वत^० - -तौ
 वैताथौ ३७, २६
 सहस्र-भाव- -वे आथौ १२, ६, ३२,
 ३४.
 †सहस्र भृष्टि^० - -ष्टि वीथौ १, ११
 ३, भाथौ २, १, १, द्विधौ १, ६,
 ६५, -ष्टिम् आथौ १६, १२,
 ११, द्विधौ ११, ५, ७
 सहस्र-भेद- -दा. चम्बू ३: १
 †सहस्र-भर^० - -रा द्विधौ २१, १, २
 सहस्र-प्राणिन्- -त्रिन. वीथौ १४,
 १५ २२
 सहस्र-सुग-पर्वन्त- -न्तम् कुदे ८,
 १८
 †सहस्र-रश्मि- -श्मये वाप १४,
 १, ७, १७, १, ८

सहस्र-राज- -ज: वीथौ १६, ३६:
 १६
 सहस्र-लाम- -म अप ६८, २, ११.
 सहस्र-वय मीसू १०, ६, ३७.
 †सहस्र-वय- -वय शाथौ ३, ७, ५,
 काथौ ५, १३, ३ निम् ८, ५ ११
 सहस्रवती- -ती निम् ८, ५ ११,
 -रवौ काथौ ५, १३, ३, माथौ
 ५, १, ५, ७६.
 †सहस्र-वर्तनि, वी^० - -नि^० दाथौ २,
 ४, ११, वाथौ १, ८, ९, -नीम्
 वैथौ ८: १६.
 सहस्र-वर्ष-वर्म- -वर्षाम् सु ४, ६,
 †सहस्र-वर्ष- -वर्षाम् आपथौ
 १, ४, ९, ७, २, ९, वीथौ १, २:
 १२, ४, १ २५, २०, २५: २३,
 भाथौ १, ४, २, ७, २, ३, माथौ
 १, १, १, १९, ८, १, १३, वाथौ
 १, २, १, २०, ६, १, १४, वैथौ ३,
 ४: १०, १०, २ ३, द्विधौ
 १, २, ४२, ४, १, २४, वीथू
 १, ८, २, -रवो^० आपथौ २,
 ५, १, वीथौ १, १२: १७,
 माथौ २, ५, २, द्विधौ १, ७, १४.
 सहस्र-वार^० - -क: गीथ २२, १५.
 सहस्र-वीर्य, यो^० - -र्यम् वीथौ ३,
 १६ ७, -र्या अप १, ४३, ६.
 †सहस्र-युव^० - -युव वीथौ १९,
 १०: १९.
 सहस्र-यत्त-कोटि^० - -टीनाम् शप
 ११४

a) पाठे वृ २६३० ० द । b) वैप १ द । c) पाठे वैप १ समुद्रम् ४, २, १०, २ टि द । d) पाठे
 वृ २६३० p द । e) पाठे सहस्रमहादि इति शोध (वृ सप्त शाथौ १३, २७, ७) । f) वत । g) पाठे वैप १
 सहस्रपोपुम् मा ४, २६ टि द । h) पाठे वैप १ सहस्रम् मे ४, २, ९ टि द । i) 'पु' इति पाठे पति.
 शोध: (स मे १, ५, ३ वैथौ च) । j) पाठे वैप १ सहस्रवर्षमा शौ ६, ७८, २ टि द । k) पाठे वैप १
 सहस्रमाशु शौ १९, ६, १ टि द । l) (मन्त्रविशेषाणाम्) दग । m) पाठे वैप १ सहस्रवर्षेति टि द । n) पाठे
 वैप १ सहस्रवर्षेति टि द । o) पाठे वैप १ सहस्रवर्षेति शौ २, ७, २ टि द । p) वस उप. = पद- q) वग.
 उप. < वृत् (वैपु मा या विमा १, १०, १) < वृ [एते] इति, मा [एते] मनिपते इति च) । r) = सप्त-कोटि- ।

*सहस्र-शस् () आधारी १७, १३,
 ४^०, द्विथी १२, ३, ४^०, आधिए
 २, ५, ३ २४, ८ : १३^०, वीथ
 २, ५, १०^०, ३, ७, १८, वैथ
 *सहस्र-शा(ता>)थ^०- थै वीथ
 २, ६, १२
 सहस्र-शा(ता>)थ^०- थै वीथी
 २६, ३३ : १९
 सहस्र-शीथ^०- थैथ वीथ ३, १०, ४
 सहस्र-शीथ^०- थैथ ५, २, ६२,
 -थैथ^० काथी २१, १, ११,
 काथी, काथी ३, ४, ५, ५, वैथी
 १८, २० २४, द्विथी ११, ७, ६७,
 १४, ४, ४०, ६, ८, आधिए २,
 ५, ६ : ३२, ७, ८ ३, ३, ९, ३ :
 ३, ११, ४ : ९, वीथि २, ७, ३,
 वैथ १, ४ २८, २, १० :
 १२, श्राभ २, १०, ९०, शुष
 ३, १३०, उधिसू ६, ८, साभ
 १, ६१८.
 सहस्रशीथक- गा ५, २, ६२.
 सहस्रशीथार्थ(पं-३आ)थ- थै
 वैथ ३, १०, १, ६
 *सहस्र-शृङ्गा^०- थैथ आथी १,
 १२, ३७, आधारी ९, १, १, वीथी
 सहस्र-सवत्सर^०- थैथ काथी १,
 ६, १७, वीथि ६, ७, ३१, -३०
 साथी १०, २०, १८^०.
 सहस्रसवत्सर-थैथस्त- थैथानि
 वैताथी ४२ १८
 सहस्रसवत्सर प्रथि(मा>)थ^०-
 -थैथ वैताथी ४२, १८
 सहस्रसवत्सरे(र-ई)त्ता- थैथाम्

निम् १०, ९ ३१^०.
 *सहस्र-सनि- नि गाथ २, ६, ११;
 -निम् आथ २, ६, ५, पाथ २,
 ६, १६
 *सहस्र सम^०- थैथ काथी २३,
 १४, १६, वीथी १७, १९ : ९,
 द्विथी १८ ४, ६८.
 सहस्र-सामिथ- मिथ. वैथ ६, ११ :
 ५
 सहस्र संवद- थैथ निम् ६, ८ : १८
 सहस्र-संथा(त>)था(ता-भ)
 मिथुत्- थैथ आधिए २, ५,
 ३ १४.
 *सहस्र-सा^०- सा गा १०, २९, ६
 ३१, -साम् श्रावा ७, ३५
 *सहस्रमा-सम, मा- स काथी
 ५, १३, ३, वीथी ३, १४ : १,
 पाथ ३, २, ७, -मा शौच ४, ४५
 सहस्र-सामि(त>)थी^०- थैथी या
 १०, २९.
 सहस्र साम्^०- थैथ आथी १२,
 ५, २२, काथी १०, १४, ११; या
 ११, २, -थैथ काथी १०, १४,
 ११.
 सहस्र-सी(ता>)थ^०- थैथ वाथ २,
 ८, ९
 सहस्र-सोमिथ^०- थैथ काथी १६,
 २२, १
 सहस्र(स भ)थु^०- थैथ आधिए
 २, ४, ११-१३.
 *सहस्र(स भ)थु^०- थैथ
 काथी ६, १५, १०, १७, १५,
 १, वीथी, -स वीथी २, ५ २६,

द्विथी ११, ७, ६०, ४, गाथ ४,
 ९, ३९, ४, आधिए, वीथ ४, ७,
 ५, -सम् गाथ २, १४, १६, थैथ
 १, १७, ४, ३, ३, ६, ४, ९, काथी,
 वीथ ४, ८, ३९, -साथ वीथ
 ३०, १८, ९, वैथ ३, १०, ४
 सहस्र(स भ)था- थैथ आधिए ३,
 ८, २ : ६४, वीथि १, १५-६८,
 या ११, ४०, -साथ निम् ६,
 ८ : ७.
 सहस्र(स भ)थि- थैथि गावा ५,
 १, ५९.
 सहस्र(स भ)मिथमिथ- थैथ थैथ
 ३६, ३०, ३^०.
 सहस्र(स भ)न्यास- सैथ काथी
 ३, ४, ३, ९.
 सहस्र(स भ)धुष^०- थैथि पाथ
 १, १८, ३.
 सहस्र(स भ)थै^०- थैथि थैथ १२,
 ३३
 सहस्र(स भ)स- थैथि आथी
 ६, ५, ८.
 सहस्र(स भ)थि(त>)था-
 था वीथि २, १० ४
 *सहस्र(स भ)थुष^०- थैथि थैथ
 १३ ३
 सहस्रिन्- गा ५, २, १०२, -थैथि
 काथी १, ६, १, ७, ६, २, काथी,
 वैथी २०, ८ ४^०, -थैथि
 काथी १, ११, १, काथी १, १५,
 ११, ३, काथी ३, ७, ४, काथी
 ५, १२, ११

a) गाथे वैथ १ सहस्रथा ते ४, ५, १०, ५ टि इ । b) वस । c) = नारायण- । वस ।
 d) वैथ १ इ । e) गाथे वैथ १ सहस्रथात् वी १२, ६, १ टि इ । f) काथ वा तद्विषयं द्विथ वा । g) = स-
 निष्प- । h) उप = २ सम । i) वस > वस । *तामिहुं इति मरुद्वं टि । j) वस उप < √सद ।
 k) नाप (कृ-) l) नाप (सूर्य-) । m) विष, नाप (सूक- प्रम्) । n) वा क्विचि । o) थ इति पाठ ।
 वनि, सोम ।

सहस्रिय- पा ४, ५, १३५; १३६.
 सह-भ्रूच्- प्रभृ. सह द.
 सहस्रजगतः आसिद् ३, १०, १ : ५.
 सहादि° सह द.
 सहार- पाठ ३, १३६.
 सहा-यत्-^१चद्- ✓सह द.
 स-हित- सं✓षा द.
 सहित्र-, सहिद्- ✓सह द.
 स^२-हिरण्य, ण्या- षयम् काथी
 १०, २, ९; शाश्री ५, ६, २; वीसु;
 -षयया वैशु ५, ३ : ८; -ण्याः
 वीश्री २३, ८ : २९; माश्री २,
 ४, ५, १४; काशु;-ण्यात् माशु १,
 ८, ७; अष २१, ६, ५; -ण्यानि
 अष ७०^१, १९, २; -ण्याम् वीसु
 ६२, २६; ७१, २३; ८६, २६;
 -षयेन भाश्री १०, १५, २१;
 १६, ६; माश्री; -षैः शाश्री
 ११, १, ११; भाश्री १२, १, ९;
 हिश्री; -ष्यै शाश्री १०, २३,
 ९; भाश्री १०, १५, १७, हिश्री.
 सहिरण्य-नास्य- ऋये काशु ३४, ४.
 सहिरण्य-वा- वा हिश्री ८, २, २६.
 सहिरण्या(य-२घ)प्- षयापः नाशु
 १४, ६.
 सहिष्णु-, सहीवस्-, सद्गुरि-
 ✓सद् द.
 स^३-हृति- --तो वीसु ५, १; तंश
 ४, १५.
 स^३-हृद्य- षः काश्री ५, २, ४;
 -द्यम् वीसु १२, ५; अश ३,
 ३०; अं २ : ३०.
 स^३-हृ(६)ल् ले(सा)ल्-
 ऋत् शश १४, २८.
 सहेतिकरण- प्रभृ. सह द.

सहोति अष ४८, १७^१.
 सहोत्पन्न- प्रभृ. सह द.
 स^३-होमक- ऋः अष २३, १९, ३.
 सहोर- पाठ १, ६५.
 स^३ हौष-^१प्रम् शाश्री १४, १, २;
 १५, ६, ८.
 ससह- ✓सह द.
 ससह- पाठभोर २, ३, ४; -अम्
 शंघ ११६ : १०.
 ससह-गिरि-> ह्यगिरि-वैजयन्ती-
 हुहकुण-भासिन्व-नीकर्मणोषामि-
 महि-नर्मद-भृगुकृष्ण- ऋः
 अष ५६, १, ६.
 ससहम् आसिद् २, ६, १ : १६.
 ससहस्- ✓सद् द.
 सांयाति^१- (> सित्क>)ज, षी-
 षा.) षाग ४, २, ११६.
 सांयुगीन- सं✓युद् द.
 सांरक्षसूचन्य-, षरूप-सं✓रत् द.
 सांराजी- सं✓राद् द.
 सांवात्सर- प्रभृ. संवात्सर- द.
 सांवरण- सं✓र (भाच्छा) द.
 सांवर्त- सं✓वद् द.
 सांवाद्य- सं✓वाद् द.
 सांवाशिन- सं✓वाश द.
 सांवासिपा- सं✓वग् (निवासे) द.
 सांवाहिक, फा-, षी- संवाह- द.
 सांवेदन- सं✓विद् (नाने) द.
 सांवेदनिक- प्रभृ. सं✓विद् द.
 सांवेपिक- सं✓विप् द.
 सांवेप- सं✓विद् (लामे) द.
 सांशंसिक- सं✓संम् द.
 सांशयिक-, षी- सं✓शो द.
 सांशान-, षिण्य प्रभृ. सं✓शो द.
 सां(ष-षे)स- षत् शाश्री १२, ९, ५.

सांसेचि- सं✓सेच् द.
 सांस्तीयक- संस्तीय- द.
 सांस्वानिक- सं✓स्वा द.
 सांस्पर्शक- सं✓स्पर्श द.
 सांस्फा, स्फीयक- संस्था, स्तीप-द
 सांशहित- षसहित- द.
 सांशहित-, षिक-, षी- सं✓षा द.
 सांशित्वेय-, सांशिय- षसहित- द.
 सांशीयक- संशीय- द.
 साक- ✓सह द.
 साक- पाठ २, ४३.
 साका^२- ऋत् षशाश्री ७, १०, ९;
 १५, २७, १; शाश्री; या ५,
 ११४; २, ९४; १२, ३८४; षाग
 १, १, ३७; वेणो ६.
 साकं-ज- ऋत्नाम् वीश्री १२,
 १० : ११; अश २, १, १६५;
 अष; या १४, ११४.
 साकं-विपद्- षजया^१ कैश्री ८ :
 १५.
 साकम्-उष्- ऋत्सः अश २, ९,
 ९३; -उत्से अश २, ७, ५८.
 साकम्-ष्य- षः काश्री २८ :
 २०; -ष्य शाश्री १४, ६, १;
 -ष्यय वैशाश्री ४१, ३, ९; -षाः
 शाश्री २, १८, १; शाश्री ३, १५,
 १; काश्री ५, ६, १४४; शाश्री;
 -ष्यात् वीश्री १४, ८ : ५; १५,
 १० : २१; -ष्यात्मा शाश्री
 २२, ६, १३; वीश्री २८, १२ :
 १६; हिश्री; -षेन वीश्री १७,
 ६० : १; -षेभ्यः वीश्री २८,
 १२ : १५; भाश्री १, ७, ८, १८;
 -षेयु शाश्री १४, ९, ६; काश्री १
 २९ : ५; भाश्री; -षैः काश्री

a) = षव-। b) = सस-। c) विप. (अश-। d) अ. < होर-। e) = परं-विशेष-।
 f) अष. । < संवात्- इति वा षद्. < सांवात्प- इति वैति पाठम्. । g) वैर द. । h) षाश्री. वैर द.

१२ ४, ०; शाश्री ३, १८, १७;
 आपथी ८, ४, १३, ९, १५; वीथी,
 साकमेध-परस्- -रुपि वीथी
 २६, १ : ७.
 साकमेध-रपाल- -ने आश्री २,
 २, १३; काश्री २८ : २०.
 साकमेध-हमिस- -विभिः वीथी
 ५, १० : १५; वैथी ९, १ : २;
 -वीथि वीथी ५, १७ : २१;
 वैथी ९, १२ : ७.
 सारं-प्रस्थाप- > ० वीथ- -वः
 आपथी ३, १७, ३; -ये मीत्
 ३, ५, १३; -येन आपथी ३,
 १६, ११; २०, २५, १; वीथी
 १७, ४८ : ४; २३, १७ : ५;
 हिथी २, ६, ५२.
 साकमेध-परस्- -व्यस्य शाश्री
 ३, ८, २; -ये शाश्री ३, १०, ७.
 सारं-प्रस्थाप-वज- -शः
 वैताथी ४३, २१.
 साकमेध-परस्(व्य-आ)दि-
 -दीनि वैताथी ४, २७.
 साकमेध-कायन- सकल- -द्र.
 साकमेध- > ० व- -वम् शाश्री
 ९, २, १; शाश्री ९, २, ५; लाथी
 ६, १२, १४, ७, ४, १; छम् १,
 ५ : ३५; निम्; -थात् निम्
 ४, १० : ३.
 साकमेध(ध-क)त्वे- -वर्द्धुं लाथी ६,
 ८, १२.
 साकमेध-वत्- -वन्ति निम् ६, ४ : १.
 साकमेध(ध-र)दानोत्साह- -री
 दाथी ९, ३, ५, लाथी ३, ६, २४.

साकर्षकायन- , पर- -साश्री ६- द्र.
 साकलायन- २ सर- -द्र.
 साकलय- १ सर- -द्र.
 सा(स-आ)का(स्था) > इत्त-
 -इत्तम् पा ८, १, ३५; मीत् २,
 १, ४४; ३, १, १९; -इत्तानि
 अथा १, १, १५; -इत्ते पा, १वा
 ३, २, ११४.
 साकाङ्क्ष-व- -थात् काथी ४, २,
 २; ४, १५ x x.
 सा(स-आ)काश- -शस्य आथ ३,
 ९, १; काथ ४१, २३.
 साकिन्- ✓सकृद्.
 साहस्योम- सङ्-स्योग- -द्र.
 साकेत- (> च- पा) पाग ४,
 २, १२७.
 साकेत-निधिल- -लेभ्य ५६, १, २.
 साकेतायन- २ सकेल- -द्र.
 साकुक्- प्रम्. सङ्- -द्र.
 सा(स-अ)क्रियप्रजन- -वम् आपथी
 २१, २०, ३; हिथी १६, ६, ४१.
 सा(स-आ)क्रोशा(स-आ)
 भापित- -ताविभ्य ६४, ६, २.
 सा(स-अ)कृ- -वत् द्र.
 सा(स-अ)कृ- -ले कोष् ३७, ६.
 रसा(स-अ)कृ- -क्षात् आपथी ५,
 २, ४; काथी १, २, १६, १;
 २, १२; वाथी १, २, १६, १;
 पा ५, २, ११; पाग १, १, ३७;
 ४, ७४.
 साक्षात् ✓कृ पा १, ४, ७४.
 साक्षात्-कुल- > च-वर्मन्-
 -र्माथः या १, २०.

साक्षात्-परमह-प्रकादि (व >)
 नी- -श्री अथ १०, २.
 साक्षिन्- पा ५, २, ९१; पाग ४, १,
 ५४; ५, १, १२४; -क्षिणः वाप
 १६, १०; २७ x x; वीथ; -क्षिणम्
 वीथ १, १०, ३०; ३१; -क्षिणम्
 विथ ५, १२०; -क्षिन् वाप १६,
 ३२; -क्षिभिः विथ ७, ४; -क्षी
 वीथ १, १०, २९ x x; विथ.
 साक्षिणी- -नीः वीथी २०,
 २३ : २२.
 साक्षि-व- -व्यम् शेष २८०;
 -वे विथ ८, ४.
 साक्षि-वैच- -वे विथ ८, ३९.
 साक्षि-निमित्त- > चा- -ता
 गीथ १३, १.
 साक्षि-साध- -प्रः या १४, १०.
 साक्षि-वत् विथ ११, ११; १२, ७.
 साक्षि-सम्प-राज-कृ- -नीत्
 गीथ १३, १२.
 साक्षी ✓कृ > साक्षी-करण-
 -ने वीथी २०, २३ : २१.
 साक्ष्य- पा ४, ३, ५४; ५, १,
 १२४; पाग ६, २, १११; -व्यम्
 शाथी ४, ६, १०; वाप १६,
 ३३; वीथ १, १०, ३४; ३५;
 -इत्ते विथ ८, १७.
 सा(स-अ)क्षत- -तम् वैप १, ११;
 ८; ३, २३ : ३; वप्र ३, १०.
 १८; -सैः वैप २, १३ : १.
 साच(व-व)वृद्ध-वर्म- -श्री
 वैप ३, २३ : ७.
 सा(स-अ)क्षर- -रः शत २, २, ८.

a) वैप १ द्र । b) *प्रधाये इति जीतं. प्रम् । c) = साकमेध-प्राथीय- । यत् प्र. इति विशेषः ।
 d) = (सदृश्य-) वाप-विशेषः । e) ना* इति पाठः? यति. शोधः । f) = वस- । g) पाठः? । लक्षि-
 यप्रमम् इति C. । h) साधिवम् इति पाठः? यति. शोधः (द्र. वापथी). । i) वस- । j) कम्. । k) उप-
 = २ प्र- । l) पोभ. वैप २, १६. समक्षम् गो २, १, ७ वि. द्र. । m) *परं मह* इति पाठः? यति. शोधः
 (व. व.) । n) कम्. > गलो. कम्. । o) = ३६- ।

साखल- का बौधाय ४५ २
 साखिवक्षेत्र- सखित- द्र
 साखेय- रसनि- द्र
 सार्य- १साख- द्र
 सा(सं)श्राम- मेन विष ५, १८५
 सागर- पावभो २, ३, ३१, कि २,
 -२ माशि १६, १०, -रम् विष
 ६, ३३, -रस्य श्र ५, १, ४,
 -रागाम् श्र ५, १, ३, -राग्
 कष २, १, ३ ८, -रे श्र ६१,
 १, २५
 सागर-श्वतुष्क- द्रम् ४५२१६ ८
 सागर निलय- वा श्र ५१, ४, २
 सागर पर्व(त) > ग्ता- नाम्
 विष २, १०
 सागुण्य- सगुण- द्र
 सा(सं)अग्नि- श्रि काश्री १५, ६,
 १४, -श्रि वाधुश्री ३ ५ २,
 -श्रीन् श्र ३ २६, -श्रीनाम्
 मोक्ष ६ ६, ३०, -श्रीनि श्रि
 ४७ ७, ४८, ९, -श्री काश्री १,
 १२, १०, ३ १३, ३, अवा १५, ५
 साभिक- क काण्ड ४४ १६,
 -कै काण्ड ४४ १२
 साभिक मुता(त-य)ह-
 विषय-वाक्य- कशानि
 काण्ड ४२ १७
 साभि-मार्त- ता शप ३७४
 सा(सं)अग्निचय- ये बौधो २६,
 १२ १७
 सा(सं)अग्निचित्य त्या- ल
 आपथी १५ ३, १३, २१, १ २
 बौधो, -राम् बौधो १६, १३
 १२, -रयानि बौधो २३ ११

१७, -रयाम् आपथी २२
 १२, १०१, श्रि १७, ५, १८,
 -रयाम् आपथी ४, १०, १०,
 -ये आपथी ४, २, ३, ८, २७,
 काश्री ७, २, ३, -रये आपथी ४,
 १, २१, माश्री ५, २, १२, ४६
 -र्यो काश्री २२, १०, ३३
 सा(सं)अग्निहोत्र- > श्रिक- क
 बौध ३, ५, २,
 सा(सं)अशौकरण- -रम् बौध ३,
 १२, १२, बौधि २ ११, १
 सा(सं)अग्र, प्रा- प्र वैश्री १३, ७
 १९, -रम् वैश्री ११, ७ ११,
 १३ १७ २, कप्र २ ३, १०,
 श्र १२, १, १०, वाध २७, १,
 -प्रया काश्री ७, २, ३५ -आ
 माश्री ५ २, १२, १७, -प्रय
 वैश्री १३, १ २
 सा(सं)अप्र पत्र- -रम् वैध ३,
 १२ ३
 साघटिक- स पदा- द्र
 साङ्ग- डा बौधाय ३ ३
 साकथिक- स/रम् द्र
 साकल- सन्त- द्र
 साकारिका- सं/ह द्र
 साकाशन- साकाशिन- स/रम्
 द्र
 साकाश्य- रसकथ- द्र
 साकुचित- रसकुचित- द्र
 साकृति-, साहरय- स/ह द्र
 साकृत्यायन- शकृत्- द्र
 साकृमिक-, शामिक- स/रम् द्र
 साकृत्य- १मकृत्य- द्र
 रसाकृत्य- प्रथ स/रम् द्र

साकृत्यायन- १मकृत्य- द्र
 सा(सं)अङ्ग- द्र वाधुश्री ३, ४२
 १०, ४, २० ४, मीम् १३,
 ३, ३०, -रम् वाधुश्री ३, १ ३
 १८, ४, १३ ८, वैध, -रस्य
 गीम् ११, ३ १६, -राम् बौधो
 १५ १४ १३, विष १ १६,
 -रामाम् मोक्ष ११, २ १४, २०,
 -राम कत ५ १, १०
 साह-काल-श्रुति- -य- त्याम्
 मोक्ष ११, ४, १९
 साह-श्वतुष्क-श्रुति- -योग- गात्
 वैध १, १ १६
 साहा(त आ)श्रुति- -ति काश्री
 १ ७, २७
 सामतिक- स/रम् द्र
 साहरव- (> 'विद्- वा) श्र ४,
 २, १०६
 सा(सं)अङ्कार- रम् आपथी १,
 २५, १२, भाश्री, -रेण काश्री
 ११
 साहा-वर्षि(व >)नी- नी श्र
 ५८, २, ४
 सा(सं)अङ्गुष्ठ घा- द्रम् हिथो
 २२ ५ १ आश्र १, ७, ४,
 २०, ४, बौध -रया वैश्री १२
 १७ १७, -शानि कैश्री २ ८,
 -हेन वैध २ ८, ११^m
 सा(सं)अङ्गो(ह उ)पाह- हात्
 वृदे ५ ५३
 साप्रहणी- श्रुतिक- स/रम् द्र
 साप्रहायाणानि वाज १२ १
 साप्रहिय- श्रुतिक- द्र
 साप्राम-, श्रिक- प्रम् श्राम- द्र

a) अथ । b) = ४४- । c) = १७५२ । d) दत्त । e) कन > पय > पत > कय ।
 *विषयम् इति पाठ १ यम लोष (उ मूने) । f) कत । g) सार्ये द्रम् । h) पामे ६ ५५ b द ।
 i) उप द्रम् । j) पत > पत । k) कन > द्रव > पत (इ ०) । l) श्रि (दत्त, अश्रुणी प्रम्) ।

१साघटिक- स/घट्ट द
 २साघटिक- सं घटा- द
 साघटिक- स/घट्ट द
 सांघाटिक- स/घट्ट द
 सांघात-, 'तिक- स/घट्ट द
 साचि° पाग १, १, ३७
 †साचीयिन्° अप ४८, १०६, निघ
 २, १५
 सा(स° अ)हावाकचामस- सान्
 माथी २, ४, ४, २४, ५, १, ३०
 सा(स° अ)ज्य- अयम् वैष्ट ४४
 ८, ११ १०, -ज्या वीसू ७३,
 १३, -ज्ये काथी १, १०, ६,
 -ज्येन वैष्ट ४, ८: ४.
 साहानालशिप्त-, 'शावनि-
 २शहा- द
 साशिक- स/शा द
 सांशिक-, 'की- ३शहा- द
 साटिक- २सट- द
 साटय- १सट- द
 साह- ✓सद् द
 साढ°->सादि->सादीय- पा)
 पाग ४, २, १३८
 साढ- ✓सद् द
 सा(स° अ)ढक- केन मप ३३, १, ७
 साहृ-, स ल्ये, साव्वा ✓सद् द
 सा(स° अ)ण्ट°- षडः प्राथी ९, ४,
 २०, काथी, -ण्डम् प्राथी
 ९, १९, १५ १४, ७, १३,
 वीथी, -ण्डय वीथी १४,
 १४ ४; -ण्डा लाथी ९, ४,
 २१, -ण्डान् माथी ६, १, ३,
 १, -ण्डान्याम् वाप २, ३२,

-ण्डेन वाथी २७ १४, वीथी,
 -ण्डे वाथी १८, २०, १५
 वीथी.
 ✓सात्->'साति (गुणे)>सातय-
 पा ३, १, १३८.
 सात- ✓सद् द.
 सातय- सं/सत् द
 सा(स° अ)तप- ये वैष्ट १, ५ ३
 सा(स° अ)तपय- ग्र वीष्ट १,
 १८, ४
 साति- ✓सद् द
 सा(स° अ)तिरात्र- ऋम् वैताथी
 २७, २६
 सा(स° अ)तिशेय- प वीथी २३,
 १ २८, -यम् वीथी २१, ४ २
 †सा(स° अ)तीकाश- ऋस्य आथ
 ३, ९, १, वाथ ४१, २३
 सातुलीय- सतुल- द
 सातोराहंत-, सात्प- सद्- द
 सात्पत- सत्प- द.
 सात्पन्तय- सत्पन्तु- द
 सात्पिक-, 'की- सद्- द.
 १सा(स° अ)तमन्->सतमन्ता-
 -ताम् वै भाष्ट ३, १५ २४, २७
 २सा(स° अ)तमन्°- ऋमा वाधुथी ३,
 ४२ १०, -तमानम् वाधुथी ३,
 १३ १८, ४, ९, ३ ८
 सतमन्त्व- स्वाय वीथी १४, ३
 १७
 सात्प-, सात्पकामि- सत्प- द
 सात्पकि- सत्पन- द
 सात्पकामि- प्रथ सत्प- द.
 सात्प-सात्पयण- प्रथ ✓सद् द

१-२सायासाह-, १-२मायासाहक-
 १गन- द
 सायाहीनिक-, साथिक- ✓सद् द.
 सात्पकि- सत्पन- द
 सात्पत- सत्प- द.
 सात्पन- सत्प- द.
 सात्पन्त- सत्प- द
 सात्पन्तय- सत्पन्तु- द
 सात्परी- रोम् प्राथी १९, २, ३,
 द्विथी १३, ८, २०
 सात्पहायन-, 'द्वय-
 साद्-, १-२सादन-, सादन्य-
 ✓सद् द.
 सादयाचारिक°- ऋम् भाष्ट १,
 १: ४
 सादयित्वा, 'व्यप्यत्- ✓सद् द.
 सादर -ने अप ४८, २८
 सादस- ✓सद् द
 सादसत- सद्- द
 सादसस्पत्या-, 'द्वय-, १सादि°
 ✓सद् द
 २सा(स° अ)दि°- ऋ पाग ४, २,
 ६०
 सादित- ✓सद् द
 सा(स° अ)दित्यद्यत- तानि निघ.
 ५१ ३
 सा(स° अ)दि(य)त्वा- -त्याम्
 श्व १२७
 सादश- १स दश- द
 सादशीय- २सदश- द
 सादश्य- १स दश- द
 †सादिे सुष्ट ४७
 सा(स° अ)द्वैश- से पाग ६, १, ७७

a) अ-व । व्यु° षस- + ✓अच्यु° इति ° MEW । b) विप्र नामन्- । c) = षस । d) -व्य ।
 दु पागम । e) वैष्ट १ द । f) (✓सद्->) सात्- >यनि इति अमिधानवि-तामाश [दि ६] प्रथ ।
 प्रसद्->नेत्र 'सात्->यनि इति मत्वम् । g) = ३स- । h) सफ साथिष्ट वीथ (पृ २५४० द) साम्यताम्
 इति यानि । i) पाठ 'स्युवरीम् इति गोष (हृ सप वैथी १३, ३० प्रथ पनि ० च) । j) पृ २५४३ k द ।
 k) पाठ 'सामया' इति शोष समाभ्यते । l) पृ २५१६ यनि ४८यनिद्वैश द । m) दु पाति ।

साद्गुण्य- साद्ग्रहिक- एत्- द.
साहाय- > साहाय- गृह- हेतु अथ
६५, २, ८.

साद्ग्रह्य- दन्व्यः साम १, ३३६.

साध, साध- ✓यद् द.

साध क- स्यस् द.

साधमान- ✓साद् द.

साधस्क- सधस् द.

साधोत्र- सधोत्र- द.

✓साध् (बधा.) पाथा. स्ता. पर.
संतिद्धौ, साधते^० अप ४८, २००;
नसाध > धा आप्तम् १, ७, २;
कृष्ण ७, ३३.

साधते नाशि २, १०६.

साधयति वीथ ३. १, १५;

साधयन्ति शोभी ५, १९, २; द्विभी
१३, ७, ८; निष् २, ४ : १८; वीथ
४, ७, २; साधय वाए १, १९,
११^०; आश्रि १, ५, २ : ६;

भाय २, ५ : १४; नसाधयनाम्
भाशि ५२; बसाधयन् हिण १,
१५, ८; वीथ ३, ८, ३७;

साधयेत् आपथी ९, २०, १;

वीथी; साधयेनाम् मीस् १२,
१, १४^०.

नसाधयानु^० आपथी २१, २२, ३;

वाथी ३, २, ५, ३०; द्विभी १४,
४, ५७, नसाधयाम^० आथी ८,
३, १; शोभी १८ १५, २; वैशाथी
३२, १३; नसाधयेनाम् आथी
२०, २१, १४, २२, २९, ३; वीथी.
सिपाधयिषे^० वीथी १८, ४५।

३०.

साधक- कः अप ३०^२, १, ११;

आज्यो २, ४; -कम् आज्यो ९,
८; -के आज्यो १०, ८; २२, ३.

साधक-ठम- सम्पा १, ४, ४२.

साधन^०- पाठ ३, १, १३४; -नः
आथी २, ३, २००^०; वीथी २०,
८ : ५०^०; कृष्ण २, १०, १५७^०;

शुभ ३, ५५^०, साम १, ४५२^०,
अन्न २०, ६३^०; -नम् वीथी १८,
१२ : ११०^०, अप २०, ६, २; काथ;
पावा २, १, २३; -नाः या १२,
४१; -नाम् आथी १, ५, ३७;
या १२, ४०; -ने अप ३६, ७, ४.

साधन-व्यवाय- ये पावा ८,
४, ३०.

साधना(न-ल)भिधान- नम्
पावा ३, १२७.

साधनी(व>)वा- यावाः अप
३६, ६३.

साधन्त- पाठ ३, १२६.

साधयत्- न्यम् विष ६, १८.

साधयन्त- पाठभो २, १, १२८.

साधयित्- न्त या ६, ३३.

साधयित्वा काथी २५, ७, १५,
आथी

साधु^०- पाठ १, १; पाय ५, १, १२२;
६, २, १६०; -धय. वीथ ४, २९,
वीथ १, ११, १८^०, -धये वीथी
२, ४ : १२^०, -ड^० नसाधो १,
२, १; ४, १०, ५, ३, ९; शोभी;
वाए १, ३, ४; पावा १, ४, १.

साधु- वीथ ३, १, ११, ४४;
वाए १, १, ११, ४४; -व्युम्
वाथी १२, १८, १; -व्युष् विष
५५, १४; -धृत् वाय ११, १७;
-धृताम् वीथ १, ४, १९; विष
३, ३६; -जो विष २२, १७.

साधी- नवी आश्रि २, ७,
६ : ५; वैथ ६, २ : ९; विष २५,
१७; -व्योः वीथ १०७, २^०;
-व्योभिः वय १, ८, ६; -न्योः
आथी ३, १३, १२; वीथी.
साधिमन्- पा ५, १, १२३.

साधिष्- वा ५, ३, ६३^०; -न्यः
आथी ७, ८, ३; ८, ५, १४; शोभी;
-डम् निष् १, ८ : २३; ५,
१२ : १२.

साधोवत्- वा ५, ३, ६३; -वः
माथी २, २, १, ८^०; निष् ४, ५ :
१४; ७ : १६.

साधु-कारित्- रिति पावा ३, १,
१४९; २, ७८; -रो वीथ २१, २,
साधु-कृत्- कृत्भिः द्विभी १४,
२, १९^०.

साधु कृ(त्>)त्- न्यम् माथी
१, ४, १९.

नसाधु-व्यव, या- न्यम् भाय
३, १ : १२, -न्यम् काथी १२, २,
८; द्विभी १६, १, २९^०; द्विभी

३०.

साधक- कः अप ३०^२, १, ११;

आज्यो २, ४; -कम् आज्यो ९,
८; -के आज्यो १०, ८; २२, ३.

साधक-ठम- सम्पा १, ४, ४२.

साधन^०- पाठ ३, १, १३४; -नः
आथी २, ३, २००^०; वीथी २०,
८ : ५०^०; कृष्ण २, १०, १५७^०;

शुभ ३, ५५^०, साम १, ४५२^०,
अन्न २०, ६३^०; -नम् वीथी १८,
१२ : ११०^०, अप २०, ६, २; काथ;
पावा २, १, २३; -नाः या १२,
४१; -नाम् आथी १, ५, ३७;
या १२, ४०; -ने अप ३६, ७, ४.

साधन-व्यवाय- ये पावा ८,
४, ३०.

साधना(न-ल)भिधान- नम्
पावा ३, १२७.

साधनी(व>)वा- यावाः अप
३६, ६३.

-न्युः आथी ६, ३, १; कौत्
वा ६, ३३^०; वा ४, ४, १८;
-धुना कौत् १०७, २; -धुभिः
विष ७१, ९०; कृष्ण ११, ६९;
-धुम्ब्यः कौत् ३, ११, ४४; वाए
४, ११, १३; वाए १, २०; -धुम्
वाथी १२, १८, १; -धुष् विष
५५, १४; -धृत् वाय ११, १७;
-धृताम् वीथ १, ४, १९; विष
३, ३६; -जो विष २२, १७.

साधी- नवी आश्रि २, ७,
६ : ५; वैथ ६, २ : ९; विष २५,
१७; -व्योः वीथ १०७, २^०;
-व्योभिः वय १, ८, ६; -न्योः
आथी ३, १३, १२; वीथी.
साधिमन्- पा ५, १, १२३.

साधिष्- वा ५, ३, ६३^०; -न्यः
आथी ७, ८, ३; ८, ५, १४; शोभी;
-डम् निष् १, ८ : २३; ५,
१२ : १२.

साधोवत्- वा ५, ३, ६३; -वः
माथी २, २, १, ८^०; निष् ४, ५ :
१४; ७ : १६.

साधु-कारित्- रिति पावा ३, १,
१४९; २, ७८; -रो वीथ २१, २,
साधु-कृत्- कृत्भिः द्विभी १४,
२, १९^०.

साधु कृ(त्>)त्- न्यम् माथी
१, ४, १९.

नसाधु-व्यव, या- न्यम् भाय
३, १ : १२, -न्यम् काथी १२, २,
८; द्विभी १६, १, २९^०; द्विभी

३०.

साधक- कः अप ३०^२, १, ११;

आज्यो २, ४; -कम् आज्यो ९,
८; -के आज्यो १०, ८; २२, ३.

साधक-ठम- सम्पा १, ४, ४२.

साधन^०- पाठ ३, १, १३४; -नः
आथी २, ३, २००^०; वीथी २०,
८ : ५०^०; कृष्ण २, १०, १५७^०;

शुभ ३, ५५^०, साम १, ४५२^०,
अन्न २०, ६३^०; -नम् वीथी १८,
१२ : ११०^०, अप २०, ६, २; काथ;
पावा २, १, २३; -नाः या १२,
४१; -नाम् आथी १, ५, ३७;
या १२, ४०; -ने अप ३६, ७, ४.

साधन-व्यवाय- ये पावा ८,
४, ३०.

साधना(न-ल)भिधान- नम्
पावा ३, १२७.

साधनी(व>)वा- यावाः अप
३६, ६३.

साधन्त- पाठ ३, १२६.

साधयत्- न्यम् विष ६, १८.

साधयन्त- पाठभो २, १, १२८.

साधयित्- न्त या ६, ३३.

साधयित्वा काथी २५, ७, १५,
आथी

साधु^०- पाठ १, १; पाय ५, १, १२२;
६, २, १६०; -धय. वीथ ४, २९,
वीथ १, ११, १८^०, -धये वीथी
२, ४ : १२^०, -ड^० नसाधो १,
२, १; ४, १०, ५, ३, ९; शोभी;
वाए १, ३, ४; पावा १, ४, १.

साधु- वीथ ३, १, ११, ४४;
वाए १, १, ११, ४४; -व्युम्
वाथी १२, १८, १; -व्युष् विष
५५, १४; -धृत् वाय ११, १७;
-धृताम् वीथ १, ४, १९; विष
३, ३६; -जो विष २२, १७.

साधी- नवी आश्रि २, ७,
६ : ५; वैथ ६, २ : ९; विष २५,
१७; -व्योः वीथ १०७, २^०;
-व्योभिः वय १, ८, ६; -न्योः
आथी ३, १३, १२; वीथी.
साधिमन्- पा ५, १, १२३.

साधिष्- वा ५, ३, ६३^०; -न्यः
आथी ७, ८, ३; ८, ५, १४; शोभी;
-डम् निष् १, ८ : २३; ५,
१२ : १२.

साधोवत्- वा ५, ३, ६३; -वः
माथी २, २, १, ८^०; निष् ४, ५ :
१४; ७ : १६.

साधु-कारित्- रिति पावा ३, १,
१४९; २, ७८; -रो वीथ २१, २,
साधु-कृत्- कृत्भिः द्विभी १४,
२, १९^०.

साधु कृ(त्>)त्- न्यम् माथी
१, ४, १९.

नसाधु-व्यव, या- न्यम् भाय
३, १ : १२, -न्यम् काथी १२, २,
८; द्विभी १६, १, २९^०; द्विभी

३०.

साधक- कः अप ३०^२, १, ११;

a) = सा(यञ-ञ)द्वयक- (द्व. शब्दसूची) । b) = ऋदि-विशेष- । पाठः? साधय-> न्यः इति
संभाव्यते (द्व. संशु-टि.) । c) धा. उपलभे वृत्तिः । d) धावे वैष १, २९१६ ट्ट द. । सा. कौट १, १२, ६
सादय इति धावे । e) साधयनाम् इति जीर्ण. प्रस् । f) धावे. वैष १, ११७० ट्ट द. । g) धावे. वैष १
सोपधाम टि. द. । h) वृत्तिरि करणे वा इत् । i) = ऋदि-विशेष- । j) विष, नाप. । k) धावित्. वा.
किरि. । l) धाव. <बाध- । m) धावे. वैष २, ३४. साधुहृत्वा मात् ४, ६, ६, १५ टि. द. । n) साधुदुन्वय
इति पाठः? धावे. शोध. (द्व. धावे.) ।

७, १, ६; साध्री ३, ३, ९;
 -नृत्वावाग् साध्री ३, ८, २२.
 साधु-चरण^० -णः प्राध्री १, १,
 ७; साध्री १, १, ७.
 साधु-नमः(ः) निघ ५७, १५.
 साधु-ना- पा ५, १, १२२; -नाम्
 आपध २, ६, २^३; द्विघ २, २, २^३.
 साधु-न्व- पा ५, १, १२२.
 -स्वम् पावा १, १, ४४.
 साधु-नादिन्- पावा ३, २, ७८.
 साधु-निपुण- आन्ध्याम् वा २,
 ३, ४३.
 साधु-नरिपुहोत- -तम् विघ
 ६४, १७.
 साधु-नुष्णत्-पचमान- -नेषु पा
 ४, ३, ४३.
 साधु-मित्र^० - (> मित्रिक >
 का, की-).
 साधु-पा^० - वा शुषा ५, २, ०^०;
 शीघ्र ४, ३०.
 साधु-रूप^० - ये वीध्री २६, ५।
 २२
 साधु-वत् ऋषा ११, ६४.
 साधु-वादिन्- -दी गीष ११, २.
 साधु-वादिन्- -दितम् ऋष १,
 ५०, ६.
 साधु-वृत्त^० - -तः वीध्री १, ५,
 ८७; -चाय वीष १, २, ३०; -चे
 वीष ५, ३५; -चेयु वीष १, १, ३.
 साधु-वृत्त- -तम् वीध्री २४,
 २६; ९.
 साधु-वृत्त (< स्वा)न- -नम् आपध
 १, २, २, ६; द्विघ १, ६, ६.
 साधु-संमत- -तः अण ७०, १, ६
 साधु-संमत्^० - -दाः काय २७,

२१.
 साधु-सादि(न् >)नी-, शु-सा-
 नि(न् >)नी- -नी वा १२, ९.
 साधु(धु-अ)शुद्रासन- -ने पावा
 १, १, ४४.
 साधु(धु-अ)साधु-प्रयोग- -ने
 पावा २, ३, ३६.
 साधु(धु-आ)चा(र >)रा^०-
 -रा शंघ ८३.
 साधु(वत्रा.)^० - -ध्यम् विघ २५,
 १७; -ध्याः आपध्री २२, २२,
 ३१; वाधुध्री ४, २६^१; २; शु;
 नृनिघ १, ५^३; ५, ६; वा १२,
 ४००; ४११^०; -५वात् वैताध्री
 १७, ७; नृमाणि २, ५, ३; ३१;
 ६, ३; १०; वीधु; -ध्याताम्
 वाध्री १४, ७२, १; श्रे ८, ११७;
 वाज ३; २; -ध्यानि अण ६९, ८,
 ६; -ध्याय कौष ३, १०, ८^१;
 -ध्यातः अण ४८, ११२^१;
 -ध्येभ्यः वीध्री १८, २९; ८;
 आभिध १, २, २; ११; ३, ११, ४;
 ३८^१; वीधु; -ध्यै. श्रे ५, १७.
 साधु-सकृत- -तः अण ६९,
 २, ४.
 साधुनां(प्रवति-) आपध्री २२,
 ५, १७; द्विध्री १७, २, ४५.
 साधुनां (वात्स्नोम-) काध्री
 १४, ७२, १.
 साधुनां-वत्संयत्त- -रम्
 आध्री १२, ५, १८; काध्री १३,
 २८, ७; काध्री २४, ५, २३०;
 -रेण आपध्री २३, १३, १.
 साधुनां-वत्- -हेन द्विध्री
 १७, ८, १.

साधुनां-वत्-वर्जित- -नेषु
 आपध्री १९, १५, ७; द्विध्री २३,
 ३, २७.
 साधुनां (वत्-वत्) आपध्री २२,
 २३, २.
 साधुमान- -तः विघ ६, १६.
 साधुवियय- -यत् आपध २, १२,
 १७; द्विघ २, ४, ५४^१.
 साधुवियय- -युः वीष ४, ८, १७.
 साधु- -प्रत्. √साध् द.
 साधुमित्र^० - (> साधुमित्रिक >
 का, की-).
 साधुयत्- -प्रत्. √साध् द.
 साधुर्म्य- -उधर्मन्- द.
 सा(स-अ)धु-पात्त^० - -तः वीध्री
 ६, १७; २२.
 सा(स-अ)धु-धार- -रम् वीध ५, १०;
 २, ४.
 √साधुि > साधुारित- -तम्
 नादि १, ४, ९.
 साधारण,णा^० - पाण ५, ४, ३८^१;
 -णः साध्री १२, ९, ९;
 आपध्री; -णम् साध्री १, १, ४;
 १३, १४, ८; आपध्री ४, १, ७;
 नादि १, ८, ७; -णा वा ११, १८;
 १२, २६; -णाः साध्री ८, ६, १०;
 साध्री १, १, ७; द्विध्री १, १,
 ३०; -णादि आपध्री ५, २०,
 ११; २४, २, २८; वैध्री; -णे
 द्विध्री ३, ३, १२; आभिध ३, ७,
 ३; २५; वीधु; -णे असा
 १, २; ३, ४; -नेषु काध्री ४, ४,
 १९; -वौ द्विध्री ६, १, २३.
 साधारण- पा ५, ४, ३८; पावा
 ५, ४, ३६.

a) वस. अण. = १चरण-। b) वृ २५१९ d) द्र.। c) वैष १ द्र.। d) पाणे. वैष १ साधुना ना १४, १ दि. द्र.। e) वस.। f) विघ. (स्वभा-).। g) विशेष. दि. द्र.। h) = २विम-। i) एवम् इति फलः इति. शीघ्र (स. आपध).। j) = ४त-। k) अण. = उपानह-३। l) वृ. पाणम.।

साधारण-चर- रेपु अप ५२, १५, ३.
 साधारण-चर- न्याद मौख ११, ३, ८
 साधारण-द्रव्य- न्याद आप्तौ ८,
 ५, १९.
 साधारण-वैशेषिक- न्याः आप्त २,
 २५, १; द्विध २, ५, १७९.
 साधारण- न्याद मौख ३, ५, ६.
 साधारण- (एय-क) न्याद विन्-
 नी विध ५, १११.
 सा(स-आ)घाच- न्येन वैश १, ९ :
 १६.
 सा(स-अ)धिक- क्वचि अप ५२,
 १६, ३; -के गोरु ३, ७, ६.
 सा(स-अ)धिपतिक- केच्यः
 काश्री २६, ५, ४९.
 साधिमन्- ✓साधु इ.
 सा(स-अ)धिघाद- शान्त आशिष्ट
 १, ६, २ : ६.
 सा(स-अ)धि, धी, श्वास, सा-
 -सम् वीष्ट १, ६, २२; -साम्
 वीष्टौ १७, ३९ : २६; १८, १६ :
 ३; वीष्ट १, ३, २०.
 साधिष्ठ-, साधीपत्न-, साधु- प्रथ.
 ✓साधु इ.
 सा(स-अ)ध्या(स)सा- सा
 काश्री ८, ८, ६; निष्ट ७, ७१३;
 ६, १३ : २२; -साः निष्ट ३,
 १३ : १५; -साम् निष्ट ७, ७ :
 ११; ७, ९ : २१; ९, ३ : ३०;
 -सायाम् लाश्री ६, ३, २०.
 साध्वस- पाठ ३, ११७.
 साध्वयन- सन्ध- इ.
 सातगा- सतग- इ.

सा(स-आ)नहुह-गोशक्त-
 -कृषि वैश २, १३ : ११.
 सा(स-आ)नहुह-शक्त- कृषि
 वीष्टौ १२, ६ : १७.
 सानसि- ✓सन् इ.
 सानु- पाठ १, ३; पाग २, ४, ३१;
 ८, २, ९३; -सु माश्री १, ८, २,
 २८; वाश्री १, ६, ३, २५;
 द्विधौ ७, २, ७१; १४, ३, ३७;
 वीष्ट; या २, २४७; ९, २०७;
 -सुः द्विधौ ७, २, ७१, निष्ट ६,
 २ : ९७; -सुनि या ९, २०;
 -सुनी या १४, १६; शशा २,
 ७, ७३; शत ३, ९, १०; -सुनी
 आप्तौ ७, ११, ९; वीष्टौ ७, ४ :
 ४१; माश्री ७, ९, ६; द्विधौ ७,
 २, ७३; अप ४८, १०१.
 सानु-मद- पा ८, २, ९.
 सानु-शब्द- न्यः शशा ५, २७.
 सा(स-अ)नुक्रमण- न्यम् वीष्ट ७,
 ११, ३.
 सा(स-अ)नुग- नाः वृदे ३, १४३;
 -गाः वीष्टौ १, ४ : ११.
 सा(स-अ)नुग्रह- न्याः आशिष्ट २,
 ५, १ : ५३.
 सा(स-अ)नुचर- -रः अप २०, २,
 ६; -रः अप २०, २, ८, -रम्
 वीष्ट ७५, ८; अप ३६, १, ६;
 -रम् संघ ११६ : ६४.
 सा(स-अ)नुचरी- रीः वाश्री २०,
 ८, २४, -रीः काश्री २०, १, १२;
 ६, १९.
 सा(स-अ)नुनासिक, का- -कः

वैशि १९; -कम् वैशि २८९;
 -वाः वैशि २६; आशि ६, १२;
 -कम् वैशि २८६.
 सा(स-अ)नुपूर्व- न्यम् वीष्टौ ११,
 ५ : २.
 सा(स-अ)नुपृष्ठ- न्यम् निष्ट ३, १३ :
 ३६.
 सा(स-अ)नुपृथक- कस्य पावा
 २, ४, ४९; ७, १, १५.
 सानुपृथक-निर्देश- न्याद पावा
 ६, १, ७३; ४, ५७.
 सा(स-अ)नुब्राह्मण- न्यानि आशिष्ट
 १, २, १ : ९, ११; १३; १७, वीष्ट
 ३, १, २१-२४.
 सा(स-अ)नुक (प)पा- न्यम्
 काश्री ७, ५, ७.
 सा(स-अ)नुलि (ह)हा- न्या
 वृदे ३, १५२.
 सा(स-अ)नुवपद्वार- नः
 आप्तौ १३, ८, २; -रम् द्विधौ
 ८, ७, २५; -री आप्तौ १२,
 २३, ९; १३, ८, २; द्विधौ ८, ७,
 २५.
 सानुसि- पाठमो २, १, २४०.
 सा(स-अ)नुस्वार- नः शशा
 १८, ३२; नाशि २, २, १८९;
 -रम् नाशि २, ६, १०; -साम्
 वाशि २, १३.
 सा(स-अ)नुकाश- नस्य आश
 ३, ९, १, वाश ७१, २३.
 सा(स-अ)नूय (न्य)न्या-
 न्याम् वीष्ट ६६, १३.
 सा(स-अ)न्य- प्रथ. २५- इ.

a) यत्. । b) टस. (द्व. वास्तु २, २३६ साधारणस्वापत्नौ इति) । इ २५८ i नेष्टम् । c) न्यम् ।
 d) विप. (वाणि-) । यत्. उप. = जल- । e) उप. = मन्त्र-विशेष- । f) वीष्टौ, पाठः । g) विप. (हराप-) ।
 उप. वत्त. । h) परस्परं पाठे. । i) उप. यत्. । j) वैश १ इ. । k) द्व. पागम. । l) पाठे.
 वैश १ सानु दे १, २, १४ टि. इ. । m) न्यम् । n) या. विधि. । o) उप. = मन्त्र-नीति- ।
 p) उप. = प्रवृत्त- । q) 'पोदि' > 'पामि' इति काश्री., स्वातुत्यापामि इति साधु.

२सान्त- सद्- द
 सांतपन- प्रसु सं/तपू द
 सा(सं-अ)न्तर- स्म सामिप १,
 ३, १:४, ३:१३, भाए २,
 १८:४.
 सा(सं)न्तस्थ- स्थान् यासि २,
 ११, -स्थानाम् श्रया १४, १४,
 सान्तरणा (स्थ-या)दि- नौ श्रया
 १४, ५५
 सांतापा-, पिक- सं/तपू द
 सा(सं-अन्व)न्त्या- न्या प्राथ
 २, ४, ५७
 ✓सान्त्वपाथा. तुए पर सामप्रयोगे,
 सान्त्वयति प्राप २, ७, ८^३.
 सान्व-> न्व-करण- ना बीधौ
 २४, १५ ७.
 सान्वयित्वा भाप २, ६, १४, हिष
 २, १, ८४, ३, १५, २९^३, युदे
 ६ १३
 सात्प्य युदे ४, ३.
 सान्द्र- पाठभौ २, ३, ३०.
 सांघियेल-, साध्य- सं/वा द
 सा(सं-अ)न्न प्रा- साम् विप ९०,
 १३, -हन विप ७४, ५, ६.
 सांनत्य- सं/नमू द
 सांनान्य- २सा-नाय- सं/नी द
 सांनहिक- सं/नहू द
 सांनिध्य- सनि/षा द
 सांनिपातिक-, पित्-सनि/पू द
 सा(सं-अ)न्वय- न्य प्राप ३, २,
 -या अण ७०, ७ ४.
 सांन्याय्यम् नरुड ४१ ५
 सा(सं)न्वयारम्भणी(या)>य-

-यम् भापथी ५, १४, ९, भाथी
 ५, १६, ९
 सापत्न- १७-१ति- द
 सा(सं)पत्य- स्थानाम् बीधि २,
 ३, ७, -स्थौ बीधू ६०, ३५, ६१,
 १३.
 सा(सं-अ)पसद्य- न्यम् वेषू १,
 ३:२३, १०:६, २०:६xx
 सापिण्डन- ना बीधौ प्र ७:१
 सापिण्डि- २गपिरड- द.
 सापिण्ड्य- १गपिरड- द
 सा(सं)पिधान- नम् बीधू ९०,
 २४, ह्य १३, १, ९, -नानि बीधू
 १, २, ५, -नौ पाठभौ ११९.
 सा(सं-अ)पूय- यम् बीधू ३, १२,
 ११, -यान् सामिप ३, ८, २,
 ५६, बीधि १, १५:६१.
 सास- पाठ ३, १, ६^१.
 सात- प्रसु सन्- द.
 साततायन-, ऐय- सात- द.
 सासि- सात्- द
 साग्रहाचार- समग्रचारि- द.
 साभापत- सभा- द
 सा(सं-अ)मिचरणि- नौ
 प्रापथी १२, १३, ६
 सा(सं-अ)मिधाचण- नम् बीधू
 ३, १२, १२
 सा(सं)मशास- सत्य पा ८, ४,
 २१, पाता ७, ४, ९, -सात् वा
 ३, २१
 सा(सं-अ)धि- ति प्राथी १६,
 २, १९
 ✓साम् पाथा तुए सामप्रयोगे

साम- १सम- द.
 सामक- नम् विप ६, ४०.
 सामप्र- सम- द.
 सामङ्गलिन्- लिन बीधौ प्र ४६, २.
 सामञ्जस्य- सम्/अन् (युगाभावे)
 द
 सामन्- पाठ ४, १५३; पाण ४, २,
 ६१, ५, २, १००; -म प्राथी ४,
 १३, २^३; ६, ५, २१, ७, ८, २xx,
 शीथी; भापथी १४, २१, ८^३,
 या ७, १०-१२^३, पा, पावा ४,
 २, ७, मीत् २१, ३४^१, -नम्
 प्राथी ४, १२, २^१, -मनी
 प्राथी २६, ७, ३६^१, बीधौ,
 -मभि प्राथी ४, १२, २^१,
 भापथी १५, ६, ३; प्राथी,
 -मम् जेषू २८:७, बीध ३,
 ९, ५, -समु सामिप १, १, ३,
 ३०^१, वेषू २, ६-६, दिष्ट १, ५,
 १३^१, युदे, -नानि प्राथी १५,
 ११, ६; प्राथी, दिष्ट २, ३, ५^१,
 -स्र: प्राथी ५, २, १४^१, ६, १३,
 २, प्राथी, -सा प्राथी १, २,
 १२, प्राथी -साम् बीधौ १६,
 ४:१०, नैथी, उनिम् ३ ११;
 श्रया १६, १०, १३, यासि १,
 ३२, भाम् ३, १६, वि २, ७, ९,
 -मिन् बीधौ ७, ८:१४, ८, २;
 २२xx, वेषौ, -मेड म्ने जेषी
 १६:२, १८ १३, प्राथी ४, १,
 ५, प्राथी २, १, ४, -मनो-
 जेषीका २०, ३२, निम् ८, १३,
 २८, मीत् ६, ६ ११.

a) = ४४-। b) स्र सान्वयति <> सान्वयित्वा भोज इति पाठे । c) विप (प्रतीकन-) ।
 d) व्यप । e) तु द २३६४, मैतु हरिहर 'स्रज' इति । न साठ > अस्वयात् इति OJ शोध ३ । १ प्रधान
 इति प्राथी ३, ११, १४ पाठ १ । f) = (विष) अण (मूल धन-) । g) वेष १ द । h) पाठे वेष १ स्वर्गा
 बी ७, २५, १ ति द । i) सामारणा इति बीन प्र १ । j) स्रज्- = सपा ते ४, ४, १२, २ । काठ २२, १४ तु साम्
 इति पाठे । k) सभा बीधू १, १६, १६ चाए १, १४, ८ सामवेदम् इति पाठे ।

-हृष्य वीष्ट २, १, ५, माष्ट ३,
१५ ५, चव्यू, -दात् वंताथी
४२, १३, -दाष्ट आसिष्ट १, २,
२, २६, वीष्ट ३, १, ८, २, १, ५, ५,
माष्ट ३, १० १०, १४:१३, वीष्ट,
-दे शोथी ३, २१, ५, पाष्ट २, १०,
६, आसिष्ट, -देन आथी २४,
१, १०, वाथी १, १, १, ६, हिथी,
सामनेद-आथी -वम् वंताथी
३५, २३.
साम-न्युष्ट- न्द निष् ४, १: १४,
-हृष्य निष् ४, १. २३, -हृष्य
निष् ९, ७. २३
साम नव्द- न्द वीष्ट १६, २१,
-न्दे वीष्ट ३, १, १८; वाष्ट ४,
७, २०, वाप १३, ३०.
साम स्वयुक्त- न्धा निष् २, १ २४
साम-संयोग- म् वीष्ट ३, १, २०.
साम-समाप्ति- ति लाथी ६, १, ११.
साम-सद्वल- स्वापि चव्यू ३. १४.
साम-सावित्री- -थीम् वीष्ट ३, ३,
३, वीष्ट १, १४ ४, २, ८. १०
साम सूक्त- न्मन् शोथी १२, ६,
१५, वेताथी २७, २४, ३३, १२,
-कानाम् शोथी १२, ८, ४,
-न्यावि आथी ८, ४, १८, ७, ११,
९, १०, १२, शोथी १२, ६, १८,
निष् २, २ ३०
साम स्तोम- मे निष् ९, १ २१.
साम स्तर- न् वृदे ८, ११९,
-राणाम् वृदे ८, १२१
सामा(म-भा)न-त- न्त्वाणि छुष्ट
३, १३ ११

सामा(म-भा)न-त- न्त्वाणि छुष्ट
जैथी २
सामा(म-भा)न- न्मन् द्राथी ७, १,
१, ९, १, १५, शोथी ३, १, १, ५,
१४.
सामा(म-भा)न-त- न्त्वा शोथी
१५, १, ३.
सामा(म-भा)दि- -दौ जैथी १२१
सामा(म-भा)नन्तये- न्त्वेन द्राथी
९, ११, १०.
सामा(म-भा)न- न्त. निष् ३,
१०: ४४; -न्तयो निष् ३, १२.
७^१, -न्तय निष् ९, ३: ७,
-न्ता लाथी ७, ११, २१, छुष्ट
३, १०-११: २५, निष् १,
१२. २१, १३: ६५, -न्तान्
छुष्ट ३, १२ ४, -न्तानाम् निष्
१, १२: १; २, ८: २२, -न्तेन
निष् ८, ५: ४०, -न्तै: लाथी
७, १३, ८, छुष्ट ३, १० ४, निष्
१, १२. २७
सामान्त्व विमक्ति- न्तय निष्
५, २: ४.
सामा(म-भा)नन्त-उक्त- न्तय
शोथी ११, २, १२, १४, ६१, ८
सामा(म-भा)माव- न्त्वात् मीष्ट १०,
५, ५८
सामिक- न्मन् लाथी ७, १, ७, नाशि
१, १, २, -कं नाशि १, ७, ८
सामिकी- की नाशि १ ६, १.
सामै(म-भा)न- न्त्वात् मीष्ट १०,
५, २६
सामो(म-भा)न- न्मन् लाथी ७, १,

७^१.
सामो(म-भा)न- न्त्वात् निष् २, ३:
२४.
रसामन्- न्ता गु २७, ५.
साम पूर्व- न्त्वे वीष्ट २, १८: १५.
साम-नेद-दाद-दृष्ट- -द्वान् विष्ट
३, १८
सामा(म-भा)दि- -दिभिः शंघ
२५१.
३ सामन्- न्द हिथी १३, १, ३, ५^१.
१ साम-पुरीष- -वम् आथी १७,
२५, ४, ७^१.
सामन्- प्रष्ट १ सामन्- द.
सामन्त- > न्त-प्रत्यय- न्त्वा वाप
१६, १३; शंघ ३०९
सामन्त विशेष- -थे वाप १६, १४,
शंघ ३०९
साम-पथ- प्रष्ट १ सामन्- द
सामयाचारिक- , श्मदिक- तमि
(म/४) द.
सामयुगीन- १ साम- द
सामरेय- २ साम- द
सामर्थ्य- सम्/वर्ध द.
सामल- वा, पाग ४, ३, ९३
सामलायन- प्रष्ट. शमल- द.
साम यज्ञ- प्रष्ट १ सामन्- द
१ साम(म)स्वस्त हिथी १५, ७, १५
सामस्वय- १ साम- द
सामाचारिक- , श्वै-सम्-आ/वृष्ट द
सा(म-भा)मात्य- न्त्वात् वाप २, ३,
७, वाप १५ २, भाप २७ ५
१११, वाप ६३, ३, ७
सामात्साम्य- १ साम- द

अ) वस । ब) = अष्ट । मलो कश्च (वैदु महनारायण तुल इति) । c) = साम प्रगाथ- ।
(इ आनर्थाव) । d) "मन्त" इति पाठः यनि शोध । e) विप । तुल > वस । f) = द्वापान्तुद्वयाऽन्त-म- ।
g) वाप (ह्रस्वा- ? (संमिष्ट इति नमा) । सत्य पुरीष- = शर्वराज्य- (= वज्र-) । पृ १५९९ । निर्देशो नेष्ट ।
h) "म, ७" इति द्विप शोध (इ हिथी) । i) = समीप-वाचिन्- । < सम-त- इति । j) इ वापम. ।
k) = अष्ट ।

सामादि- २सामन्- द्र
 सामान्यमिक- प्रम् २स १न- द्र.
 सामान्त- प्रम् १सामन्- द्र
 सामान्य- प्रम् २समान- द्र
 सामायम् निम् ८, ४* १३.
 सामायिक- प्रम् समाय- द्र.
 सा(सं-अ)मावास्या- स्वाय
 आश्वी ६, १३.
 सामासिक- सम् √ अस् (स्यणे) द्र.
 सामि^०- मि आश्वी १३, १३, १,
 आपश्वी १४, २३, ३, माश्वी ३,
 ८, ९, छुम् १, ७: ८, ३, १४*
 ११, वा ६, २३कुं, वा २, १,
 १७, पाग १, १३७
 सामि प्रतिविद्- इम् वा ६, २३
 सामि-वचन- ने पावा ५, ४, ५
 साम्नु(नि-ञ)वाह- अम् काश्वी १,
 ६, २४, २५, ११, ४, वैश्वी २१,
 १० १; द्वित्री १५, ६, १, -मानि
 वाश्वी २४, ६, १५, -ने द्वित्री
 २५, ६, ६, मीम् ६, ५, २५
 सामिक- अकी- १सामन्- द्र
 सामिधेनी- अन्व- प्रम् सम् √ इप् द्र
 सामीच्य- सम् √ अच् द्र.
 सामीप्य- समीप- द्र
 सामीर्य- समीर- द्र
 सामुत्कारिक- समुद् √ कृप् द्र
 सामुदाय- समुद् √ इ द्र
 सामुद्र- अक- प्रम् १समुद्र- द्र
 सामुद्रि- २समुद्र- द्र
 सामुद्री- १समुद्र- द्र
 सामुद्रिक- सम् √ लृप् द्र
 सामिपत्य- प्रम् १सामन्- द्र
 सांपद्- सम् √ पद् द्र

सांपर^०- > पक-
 सांपराय- संपेरे(रा √ इ) द्र
 सांपरायण- पाग ४, २, ८००, -णस्य
 चात्र ३८ ७, ११, ३९* १५
 सांपरायणक- पा ४, २, ८०.
 सांपरायिक- संपेरे(रा √ इ) द्र.
 सांपातिक- सं √ पत् द्र
 सांपादनिक- सं √ पद् द्र.
 सांपेय^०- (> पितृ-)
 सांपेयिक- सं √ पितृ द्र.
 १, २सांप्रत- अतिक- संप्रति द्र
 सांप्रदानिक- सांप्र-दायम्, दाविक-
 सप्र √ दा द्र
 सांप्रयोगिक- संप्र √ युद् द्र
 सांप्रदानिक- सं √ प्रच्छ द्र.
 सांप्रियक- संप्रिय- द्र
 √ साम्न्^० पाषा चुत्ता पर सन्वन्ने
 १सामन्^०- (> पितृ- वा) पाग ४,
 १, १६
 २सा(सं अन्वा >) म्य^०- पाग ६, १,
 १५६
 साम्भक- सम्भक- द्र
 सा(सं अ)म्भर^०- रा वैश्व १, ९, ५
 साम्भय- सम्भय- द्र
 साम्भय्यायी- सम्भु- द्र
 सांपरायण^०- जा: वीश्वी १९ १
 सांभवाह- संभवाह- द्र
 सांभारि^०- रि वीश्वी ४४ ३
 सांभाष्य- सम् √ भाष् द्र
 सांभूयि- संभूयस्- द्र
 सांभ्रम- सम् √ अम् द्र
 सांभ्रत्य- १शं मति- द्र
 सांभ्रद- २संभ्रद- द्र
 सांभ्रनस्य- संभ्रनस्य- द्र

सांभ्रातुर- संभ्रातु- द्र
 सांभ्रोदतिक- सं √ मुद् द्र.
 साम्य- १सम- द्र
 साम्येक्ष^०- अम् आपश्वी १०, २०,
 १६, -साय वैश्वी १५ ७.
 १, २साम्राज्य- सम् √ राप् द्र
 साय^०- पाठमो २, ३, १, -यम् आश्वी
 ३, १२, ४, माश्वी, पाग १, १,
 ३७, -यम् ४ यम् वीश्वी ३, ४:
 १४, माश्वी ३, २, १३, वाश्वी,
 -ने वैश्व १, १८ २.
 साय-राज्य^०- वमि आपश्वी ६,
 ८, ४, वीश्वी ३, ५, १४, माश्वी,
 -वम् शाश्वी २, ८, २०; -वान:
 आपश्वी ६ ८, ४, वीश्वी ३, ५:
 १४, माश्वी.
 साय-होम- अम् वीश्वी २८, १२:
 १, -साय कप २, ९, ३, -ने
 वैश्व ६, १५ ४, -सेन माश्वी ३,
 ४, ८, -नेषु अम् २३, १, ३, ७,
 ३; -मै साय ४५ १९.
 सार्य-काल- न्ने कारु ४५ १५.
 सार्य-तन- वा, पावा ४, ३, २३
 साय दुग्धा^०- नधम् आपश्वी १०,
 १७, ५, वीश्वी २९, १०: १४,
 वैश्वी ८, ४: ९×२, द्वित्री
 साय-दोह^०- न्, वीश्वी १९, ५:
 २७, २७, १३-४, माश्वी ३, १,
 ११, १५, -हम् वाश्वी ४, २, ३८;
 ७, ४ २६, आपश्वी, -हरण द्वित्री
 ५, २, १९, -हा द्वित्री २, ६,
 ५१, -हाम्पाय आपश्वी ३, १६,
 ११, -हाय वैश्वी १४, ५-३,
 द्वित्री १, ४, १×२, -हेन आपश्वी

a) = वस-। b) वैश्व १ द्र। c) सापर- इति पागम। d) वृ २३१४ ७ द्र। e) = √ साम्य,
 पम्। f) व्यप। g) पस (वृ ज्यार)। h) उप. = यद्-। i) क्षर्पं यु वी। <सामि- + √ ईस्
 इति यद्-त, <साम्येक्ष- इति ०, <साम्य- इति ३८५। j) सप्र वै ७७ वैमि १, २०५ साम्येक्षाय इति
 पाणे। k) उप. < √ वा। l) वैश्व २, ३८ द्र। m) = धार्य-दुग्ध-।

९, १, ३०, माथी २, ३, १५,
 द्विथी, -दो बापथी ३, १६, १९,
 ८, ५, ३०, वैथी ८, ९: १२
 सायदोह-दर आपथी १, १४,
 ७, ८, माथी १, १५ ५, वैथी
 २, १ ७
 सायदोह-स्थान- -ले काथी २५,
 ५, ७, बीथी २७, १३: ५, अप्राय
 ४, १
 सायदोहो $\sqrt{क} >$ ही हूय
 वैथी २०, ३०. ६.
 साय-श्रुति^२ - तितु द्विथी १४, २,
 १७, -ती. द्विथी १४, २, १, १८-
 सायम्-अग्निहोत्र-धर्म- -मंग माथी
 ४, ३, ४७
 सायम्-अग्निहोत्र-भक्ति- -ति:
 बीथी २५, १६ ३
 सायम्-अपराधी^३ - -गोपि बीथी २५,
 ७ ८
 सायम्-अपराधी^३ - नम् माथी २,
 १, ३, २
 सायम्-आदि- दि कर २, ९, १
 सायम्-अरम्भन^४ - -नम् वाथी १,
 ५, २, ९
 सायम्-आरा- -दम् बीथ २, ७, २६,
 -शान् वाध २७ १६, -थो
 आपथी ४, २, ७, वैथी ३ २, २१
 सायमात-प्रारणा- -ले गोथ
 १, ३, १७, -थी बीथ ७२, ४४,
 ७३, १६१.
 सायम्-आहुति- -ज्ये बीथी ३, ४
 २, -ति काथी १०, १, २१,
 वाथी ३, ११ ३, ५, गोथ १,
 १, १३, -तिम् बीथी २९, ७
 ४, वाथी, -तो वैथ ३, ६, ३,
 -ते माथी ९, ८, ९, गोथ १, ९.

१३x४, -ती काथी १६, १, ७,
 आपथी ५, २५, १३, माथी २, ८,
 ९; -था वाथी ३ २९: ६, ८,
 ३४: ६; निम् २, ५: ४, ३१,
 -थाम् काथी ४, १२, १; २५
 ७, १, वत्र ३, २, २; -थै वाथी
 ३, ३४-३५. ३, वत्र ३, ८, ७.
 सायमाहुति-कार- -क: बीथी
 २८, १२. ४, वैथी २, २. १४;
 -कार बीथी २८, १२: ५, वैथी
 २, २: १४, -ले वाथ १ ३, ८.
 सायमाहुति-संस्कार- -र: शथि
 १, १, १०.
 सायमाहुति सं(स्थ >)स्था^५-
 -था साथी १०, ११, ३.
 सायमाहुत्यु(ति व)पक्रम^६- -म.
 गोथ १, १, २३, -मम् दाय १,
 ५, ६.
 सायम्-उपम^७ - -मम् बीथी २४,
 ३०: १, आगिथ ३, ५, १: ५,
 बीथि १, १. ४, २, ८, १०, -सागि
 बीथी २५, ७: ७
 साय-प्रातर(ः) काथी २, ८, ६,
 १३, ८, ३, १२, १५, १६, ४,
 ५, ११, काथी, अमा ३, १, ११^८.
 सायप्रात-किया- -ये अय २३,
 ९, ३
 सायप्रात-अश्रुति- -तीनाम्
 वाथ १७, २.
 सायप्रातर-आहुति- -तिमि
 द्विथि २० ११, २१ १, -ती
 काथी १० १९, ३, -ती निम्
 २, १ ६, बीथि २, ७, ५, वैथ २,
 ६, ५
 सायप्रातम् बीथ- -हा बीथी
 २१, १. ६

सायप्रातदोहा(ह-आ)वि-
 -ती काथी २५ ५, २.
 सायप्रातर-होम- -मम् वाथी
 ४, १३, ३, २५, ३, ३, -मथो
 गोथ १, ९, १२, -मात् काथ
 ४६. १; -ती गोथ १, ३, १६.
 सायप्रातहोम-यर्जनम् दाय १,
 १, २१.
 सायप्रातहोम(म-म)न्त-
 -मे वैथ ४, १०: ४,
 सायप्रात-उचन- -नयो: दाय
 ४५: १७.
 सायप्रातिक- पात्र ६, ४, १४४.
 साय-भोजन- -नम् वाथ १७, २१.
 साय-मन्त्र- -म्रेण बीथी ९, १२:
 १७
 साय(य-म)दन्- -दनि, -द्वि वा ६,
 ३, ११०.
 साय(य-म)दन्- -द्वे आगिथ २, ४,
 ७ २, वा ६, ३, ११०.
 साय-अल- -ले युरे २, ६८
 सायक^९ -क वाथी ३, ७६: ३०,
 हु २३ १, अय ४८, १०४^{१०}, निप
 २, २०^{११}, -कम् बीथी १५,
 १५ १, २० १२, ३०: २०,
 -का अय ६७, ६, ५, -कानि
 बीथी ९, ७. २३^{११}, -वेन बीथी
 १५, ३० १३
 सायक^{१२} - गाम ४, ३, १९
 सायकायन- पा ४, १, १९. -न
 दाम ४, १८०
 सायपिण्ड- (> पिण्ड-गन्त- पा)
 पाय ४, २, ५४
 सा(म-म)यन- -नाम्प्याम् काथी १,
 ४, १२.
 सायवम^{१३} - -नाम् बीथ ८८, ५

व) = होम-विशेष-। ब) अय,। c) वैप १ द। d) पात्रे वैप १ सायं सायम् बी ३, ३०, ७
 टि द। e) = वक्र। f) व्यप। g) = वक्र-। h) सा. (मू. शी १८, ४, ११) साय^{१३} इति।

सायस्य^३- -स्याः वीथीष ४१ : ५.
 सायाहन्- -ह- साय- द.
 सायुज्य- सयुज्- द.
 सा(स^३-आ)युध- -धः वीथी ६, ११ :
 २१; -धी वृदे ४, ६७.
 √साइ पाषा. चुरा. उभ. दीर्घत्वे.
 रिसार(वप्रा.)^३- पा, पावा ३, ३, १७;
 पाग २, ४, ३१; -रः माधि ७,
 ८; -रम् कौथ १, ९, ३१; अप
 १, ६, ३३; २, ५, ३; वैष १, १०,
 ५^६; -राणाम् अप ५०, २, १^६.
 १सारं-गं- -गाः वैष १, १०, १६;
 ३; ५^३६.
 सार-नण्डुल^३- -लम् काश्री ४, १, ६.
 सार-न- -नम् शीघ्र ४, ५, १४
 सार-पर- -रम् अप २, ५, ३.
 सार-माण- -णम् कष ३, ३, ५.
 सार-वत्- -वत् वप्र १, ७, २.
 सार-युसो(स-उ)स(व>)वा^३-
 -वा विष १०, ३.
 सारा(र-आ)सुरूप- -प्वेण वीथ १,
 १०, १५.
 रसा(स^३-अ)र^३- -रः वीथु १६ : २२;
 -राणि वीथु १६ : २.
 रसा- (>सारक- पा.) पाग ४, २,
 ८०.
 सारकायन- प्रन्. १सरक- द.
 सारघ- सरपा- द.
 रसारङ्ग (वप्रा.)^३- पाठ १, २२३;
 पाषाण ६, १, ९३; -ङ्गः आपधी
 २०, २, १; द्विथी १४, १, २१;
 -ङ्गम् शाश्री १६, १, ११; अप्रा

१७, १४; अप्रा ३, ४, ११; -ङ्गाः
 वीथी १५, ३८ : १११; उलित्
 ८ : ३.
 सारङ्गी^३- पाग ४, १, ४१^६; -ङ्गीः
 आपधी २२, २०, १४; द्विथी १७,
 ७, २६; -ङ्गः काश्री २२, ९,
 १३.
 सा(स^३-आ)रण्यक^३- -कानि वन्यु
 ३ : १७.
 सा(स^३-अ)रण्यगेय- -गम् लिङ् ५,
 १ : २.
 सा(स^३-अ)रद्वि-प्रादेश^३- -सः
 वीथी १७, २१ : २; आपधु १२,
 ३; १५, ६; १८, २; वीथु ८ :
 १५^{१०}xx; द्विथु.
 सारथि[थिक]^३- पाठ ४, ८९; पाग
 ५, १, १२८; -थयः वाधी ३, २,
 ५, ४८; -थिः वृदे ५, १३०; अप्रा
 ३, ४, ११; माधि १४, १; -थिना
 वाधी ३, ३, १८; -थिम
 आपधी २०, १६, ९; २२, २८,
 २०; वीथी १८, ४४ : ६; वाधी
 ३, ४, ३, ३३; द्विथी १४, १, ३२,
 २३, ४, ५९; शेष २५४; कष
 २, ६, ७५; शुभ ३, १२०; -थी
 पाथ ३, १४, १; -०थ वीथी १८,
 ४४ : ६.
 सारथ्य- ,रथिषय- पा ५, १, १२८.
 सारपथ^३- (>त्रक^३- पा.) पाग
 ५, १, १३३.
 सारभट^३- -रः आपधी १, ७; -रं
 आपधी २, ४.

१सारमेय- १तरम- द.
 २सारमेय- २सर(न>)मा- द.
 १सार्य- -येण आपध २, १६, १२१.
 सारयमाण- √ष द.
 सारल- सरल- द.
 सारव- सरयू- द.
 सारस- पाठमी २, ३, १७४.
 रिसारसायन- २सरस- द.
 रसारसा[स्या]यन^३- (>सा
 [स्या]यन-भक-पा.) पाग ४,
 २, ५४.
 सारसेय- २सरस- द.
 सारस्वत- ,थी- प्रन्. २सरस्- द.
 सारि(क>)का^३- (>आ-व[न>]
 ण-).
 सारिन्- √ष द.
 सारिखक^३- -कः कष २, १०, १४२
 सारूपवसर^३- ,थ्य- स-रप- द.
 सारुण्डेय- सुवण्ड- द.
 सा(स^३-अ)मैल- -ले अप ६८, २, ५२.
 सार्गिक- √ष द.
 सार्ङ्गलतोदि- सृङ्गल- द्वि. द.
 सार्द्धय- सृङ्गय- द.
 रसार्थ- पाठ २, ५.
 रसा(स^३-अ)र्थ- -र्थम् वृदे १, ९.
 सार्ध-क- -काः अप्रा १२, २६.
 सार्दाक्य- २सृङ्ग- द.
 रसा(स^३-अ)र्द्ध^३, र्धा^३, र्ध- -धम् कष
 ३, ४५; ४, १०; -र्धाणाम् अप
 १, २८; -र्धे विष ४, १४; वृदे
 ४, १०८; माधि ७, ८; -र्धो
 वीथी १९, १ : १४.

a) कष १. b) = वस. c) वैष १ द. d) = क्षेत्र- . e) = [प्रवरणन] वनपद-विशेष- .
 f) = योगि-विशेष- . उप. < √गम् . g) कष. शुभ विष. h) विष. i) वग. >षम. j) = रपाद- .
 उप. = २वर- . j) = सारङ्ग- . k) तु. पागम. l) उप. = शयन-विशेष- . m) उप. द्वम. n)
 णा इति पाठः इति. नोधः . o) पाषा. पाठः . p) सारपुत्र- इति भोजः (तु. पागम.) . q) श्रियश्च
 इति पागम. . r) = मुर्द्ध-विशेष- . s) व्युत् < सारस- इति पागम. . t) वृ २३८७८ द. . u) माधि.
 पाठः .

सार्द्ध-नव(व-अ)द्गुह- के अणु
 ७,३८.
 सार्द्ध-अप्यत यामा(म-अ)न्वरः(ः)
 क्त २,३,१
 सार्द्ध-मासा(स अ)द्वय- -मे अण
 ७१,८,१.
 सार्द्ध-संबलसर- -न्म् शंघ ३८२.
 सार्द्ध-हस्त- -स्वे अणु ७, २
 सार्द्ध(धं अ)द्गुला(ल-अ)न्ल-
 (र>)ना- -साः क्त २,८, २.
 सार्द्ध(धं-रआव>)षा- घया
 अण १,२८
 रसार्द्ध^०, धं^०- -धंम् बीधौ ४,८ : ४^१;
 ११,९ : ११, माधौ, लाधौ ५,
 ८, ५, १२, निम् २,१३ : ११,
 ४,८ १८, अज्यो १३, १, पाण
 १,१, १७, -धंम् उधंम् वाधुधौ
 ३,७६ : १,२, ४, १०० : १२.
 सा(सं^० अर्थ>)ध्या- -ध्याः बीधु
 ११ : ३, ८, १०, ११, १३.
 ५, -ध्याभि. बीधु १०. २५,
 ३३.
 सार्ध- प्रम् सर्व- द
 सार्धाकव- , वाचन- सप्तक- द
 सार्धाण- (> सार्धाण- वा)
 पाण ४,३,८६.

सार्धेणधिमास्तम् वाधौ ३, २, ७,
 २१
 सार्ध- प्रम् सर्व- द.
 सार्धविसि- -धयः क्त ३,६, १२.
 सार्धसेनि- प्रम् सर्व- द.
 सार्धप- सर्व- द
 सार्धा, ^१ द्विधौ २१, ३, १६.
 सार्ध^२ निम् ६, १३ : २६.
 सार्धम्^३ अधौ १२, १५, ५
 सार्धम्^४ अणधौ २४, १०, १२.
 सार्धम्^५ वा १४, ३६.
 सालकायन- २सलक- द.
 सालकि- १सलक- द.
 सालनिष्प- १सलक- द
 सा(सं-अ)लेकार- -रा क्त २१,
 १,६.
 सालावृक्ष^१- -केम्प. शोधौ १४, ५०,
 १
 सालावृक्षी- -की बीधौ ९, १८
 १४^३, द्विधौ २४, ७, २४^३.
 सालावृक्षी-सुत^२- -सा वृदे ३,
 १३२
 सालावृक्षी^३- -यस्य वाच
 ४०. १०.
 सालावृक्ष^४- -कदा चात्र
 १ ८.

सालोन्य- सलोह- द.
 सारद्व- पा, पाण ४, २, १३३, ३, १३३;
 पाण ४, १, १७६, -न्मा अण १,
 ७, २; -द्वयानाम् अण १४, ५;
 पाण ४, २, १३३.
 सारद्वक- पा ४, २, १३४-१३६
 सारदा(सं अ)वयव^० पा ४, १, १७३.
 सा(सि>)रु- पा ४, १, १७६;
 -द्वयोः अण २ ११, १२^१.
 रसारद्वक- (> र्की- वा.) पाण ४,
 १, ४१.
 रसारद्वक^२- (> र्का-गिति-)
 सारदा^३- > १सारद्वेय->
 रसारद्वेय- पा ४, १, १६१
 सा(सं-अ)वका- -क्या वाधौ
 १२, ३, ११, -काः दाधौ ९, १,
 १४, लाधौ ३, ५, १३, -क्यसु
 माधौ २, १, ३०.
 सा(सं-अ)वकादा-न्य- -वात्
 पाण १, १, ५३, ३, १, ३०, ६,
 १, १५४.
 सावचस्^०- -चसः बीधौ ४३ २
 सा(सं-अ)वधान- ना शंघ २११.
 सावन- √सु (अभिवये) द.
 सा(सं-अ)वयव, वा- -यम् पाण २,
 १३, २, क्त २ २, ३-६, -वा

a) क्त > पाण. । b) उप = प्रमाण- । c) लाधौ निम् अज्यो पाठ । d) = सह- । बीध १ द । e) = यत्- । f) तु पाणम । g) विष ('राजविनामोधारणसहित- [अत्रिय]) । धस- + ('राजवि- मव->मते) 'राजविमव->नस 'स राजविमव->-न्या इति शोध । 'सादृशः सन्तो यदि प्रयुज्यन्ते' इति वा । संस्कृते शोधयेते सादृश्या इति (तु C) । h) विष (समिहित गजवल्- [अनुवाक-]) । धस- + (√कम् [√कम्] 'सुती' > मते) 'अर्द्ध->रस 'साऽर्द्ध->र्द्ध इति शोधः । i) निवि ('राजविनामोधारण- सहितम्) । 'स राजविमव->नयम् इति शोधः । संस्कृतां । BH । सार्धम् इति, तथा द्विधौ २१, ३, १६ शार्धा इति पाठे, PWH प्रम् रस- + आ/रिप् 'प्राति' > चति । BH । विष = सार्ध- , < सधि- इति नारायण । j) 'सार्धम् इत्यस्यैव पाठे द । k) भाष ('समानराष्ट्रकान-) । 'स-राष्ट्र-> 'साराष्ट्र-> -न्यम् इति शोध । BH शिवध 'सार्धिष्ठम् इति, सप्त वै २ ३ सार्धिताम् इति च पाठे । l) = सालावृक्ष- । m) पाठे १ २६१५ C द । n) उप = पुद्- । o) व्यप । p) अण्यार्थे ल प्र । < सालावृक्ष- इति BH । q) अन्वयार्थे ण्य. प्र । r) अत्रिय विशेषः, शैव । श्रु ? < सलवा- (= अत्रिया-) इति पाठ (४, १, १७३) । s) १ २३८९ k द । t) १ २३८९ । द ।

वीथु ११: १४; १२: ८.
 १ सावर्ण्य-, १^०णि-प्रभृ. ३ सवर्ण-द्र.
 २ सावर्ण्य-, २^०णि-, २^०व्य- ४ सवर्ण-द्र.
 सा(स^०-अ)वस्तरण- णम् आपथ
 २, ६, १५; द्वि २, २, १६.
 सावहव^०- वा: बौध्मी २४: २.
 साविक- २ सव- द्र.
 सावित्र-, २^०नि- प्रभृ. सवितृ- द्र.
 १ सावीर्याकृतिकर्मन्- षंणि अप
 ७०, ११, ४.
 सावेतस- सवेतस्- द्र.
 सावेवस- १ सवेवस्- द्र.
 साव्य- २ सव्य- द्र.
 सा(स^०-अ)व्यय-कारक-विशेषण-
 णम् पावा २, १, १.
 सा(स^०-आ)शीर्क- षंणि वीथी ३,
 १७: १५.
 सा(स^०-अ)श्व- षा: आपथी १४, २६,
 १^०णि; -अम् सथी २२, २, २०.
 सा(स^०-अ)श्वमेध- षे वैताथी
 ३८, ९.
 सा(स^०-अ)ष्टमभा(ग>)गा- गा:
 वीथु ११: १४; १२: ११;
 १३: ६.
 सा(स^०-अ)ष्टम(>)ष्टा^०- षाम् विष
 ९०, २२.
 सा(स^०-अ)सन्दीक- षम् सथी
 १६, ६, १६.
 सासहि-, सामहव- ✓सद् द्र.
 सामुद्यति^० अथ ४८, २७^०.
 सा(स^०-अ)स्तर(ग>)णा- णाम्
 सथी ८, ११, २१.
 सास्ता^०- पाठ ३, १५.
 साह- ✓सद् द्र.

साहायन- २ सहक- द्र.
 साहचर्य- सह द्र.
 साहत्- ✓सद् द्र.
 साहदेव्य- सह द्र.
 साहन्य-, साह्य-, १ सह- प्रभृ.
 ✓सद् द्र.
 १ साहस्तोत्तम- षे लाथी ६, ३, ८.
 साहस्र- प्रभृ. सहस्र- द्र.
 साहायक- ष्य-, ष्यकाग्या-
 सह द्र.
 सा(स^०-अ)होराश- षाम्णि आपथ
 २, ६, ३: ३; ५; ७; १; वीथ २,
 ५, १६-१९.
 सा(स^०-अ)द^०- षत्य आपथी ११,
 ४, ७; वैथी १४, ३: १८.
 साहस- ✓सद् द्र.
 सि पाठ १, ४, ५७.
 ✓सि(क्या) पाथा. स्वा., क्वा. उम.
 वन्धने, सिनोमि षकाय ११, २;
 २९, १.
 सिनति मा ५, ५; ११, ३१;
 षिनिति^० साथी १, ३, १४;
 सथी १, ६, ३; आपथी २४,
 १२, ७; द्विथी २१, १, १;
 असिवात् बापथी ४, ६४^०: २.
 सयन^०- षात् या ६, २८.
 १ सिन, वा- पाठ ३, ८९; -षंणाम्
 आपथी ६, २२, १; षण्ण ५, १२.
 षसिवा पाठ ३, ५, ३; भाट.
 सिन- पाठ ३, २; पावा ८, २,
 ४४^०; -अम् षविष २, ५^०,
 ४, २; या ५, ५^०क^०: ११,
 ३१^०; -षंणा^० आपथी १६,
 १६, १; वैथी १८, १४: ५.

सेतु^०- पाठ १, ६९; -षंणाम् आपथी
 १६, १८, ७; वैथी १८, १६: ५;
 द्विथी ११, ६, २९; -हृ: आपथी
 २, ८, ६१; वीथी १३, ४३: ९^०;
 बापथी ४, १०२: ७; ९; वैथी
 २०, १५: १^०; षद्विथी १०, ३,
 १६; १२, ४, ४; १४, २, २५;
 -तुना वीथी १४, ७: १४^०;
 २६, ७: १७; १८; बापथी ४,
 १०२: ७; ८; -तुम् षवीथी
 ६९: ११; १७, १३: ६; २१,
 १०: ३०; बापथी ४, १०२:
 १०; वैथी १२, १४: १३; -यत्
 सौध २, ३, ६.
 सेतु-कृत्- ष्य विष ११, १;
 वीथ २, ३, ५.
 सेतु-बन्ध- ण्यात् आपथी ७, ५.
 १ सेतुबन्धाकोवा^० अथ ६५,
 २, ५.
 सेतु-भेदक- षान् विष ५, १५.
 सेतु-सामत्- ष गीषि १, १, ८.
 सेत्र- पा ३, २, १८२.
 सेह- पा ३, २, १५९.
 सिंसक^०- षान् अथ ५०, २, ५.
 सिंह^०- पाठ ५, ६३; पाठ २, १, ५६;
 ६, ३, १०९; -हृ: आपथी १७,
 १, ८^०; वीथी १०, ३८: २०^०;
 वैथी; या ३, १८^०; षं; -षंणम्
 आपथी १८, १५, ३; द्विथी १३,
 ६, ३९; या ५, ३; ८, १५^०;
 -हृयो: माथी ५, २, ४, २०;
 -हृस्य वाति २, ५६; -हृ:
 अर २०, २, २; ४०, २, ३४४;
 -षंहे आपथी २२, २५,

a) = षण्- । b) व्य. । c) उप. स्त्री. षण् प्र. (पा ४, १, १२) । d) स्तापायां वृत्तिः ।
 e) विष १ द्र. । f) पाठे. विष १, १३१५ j द्र. । g) वा इति मू. । h) = प्राय- । i) पा. अदने वृत्तिः ।
 j) = षण्- । k) पाठे. विष १ काठ ३८, १२ टि. द्र. । l) पाठे. विष १ द्र. । m) सेतुबन्धाकोवात् इति वा
 सेतुबन्धान् कृत्वान् इति वा । संस्कृतं: लोपः । n) = देश-विशेष- ।

२२, वीथी २, ५, १, ८ १५x, १५x,
 द्विथी, -हो आपथी १९, २,
 ११, वाथी ३, ५, १६, वीथी
 †सिंहो- हो^० वाथी ५, ३,
 २८, ३२, ४, १२, शुभ ३, ३१०,
 ३१३, यात्रि २, ६७, १४, -हो.^०
 आपथी ७, ४, ३, ५, ५, वीथी.
 सिंह गति^०- वा^०, पाग ५ ३, १००
 सिंह चर्मन्- -मंगि आपथी २०,
 १९, १३, वाथी ३, ४, ५, ५, द्विथी
 १४, ४, ४१.
 सिंह-गुण^०- -पडा शय २२४
 सिंह नाद-नादिन्- -दिने शय ३६,
 १, १५
 सिंह-व्य^०- वा^०, पाग ५, ३, १००.
 सिंह युज- -केन रूप ६८, २, ५
 सिंह-लोमन्- -मभि आपथी १९,
 २, १०, वीथी १७, १४ ७, द्विथी,
 -मानि वैथी ११, ४ १, -सा
 माथी ५, २, ११, १६
 सिंह वत् श्व ६१, १, १३.
 सिंह-व(त्>)नी^०- वी द्विथी १२,
 १, ६.
 सिंह वृक्-व्याघ्र-लोमन्- -मानि
 काथी १५, १, २५
 सिंह वृष- -वै अय २४, ५ १
 सिंह सनाह- -वृम् श्व २०, २, १ ७
 सिंह(इ-आ)सन^०- -नम् श्व ४
 १ ६, ५, ४, ४, ६ १ २ -मानि
 श्व ६४, ७, ६, -वै विष २९,
 १२

सिंहक->सिंहकाम- वा.) पाग ४,
 २, ८०.
 सिंहकर्ण^०- (>सैद्धान्त- वा) पाग
 ४, ३, १३.
 सिंहकोष्ठ^०- (> सिंहकोष्ठ)
 सिद्धिका^०- -रा वृदे ५, १४४.
 रसिही^०- -हो श्व १८, १, १७, -श्वः
 पाय १, १३, १, वै ६३: १.
 रसिही^०- -सा वाअ २ १३.
 रसिफत्, ता^०- पाठभो २, २, १३६,
 पाग ४, २, ७५, ५, ३, १०५,
 -नम् वासि २, ३, १ ३, -सा
 शुभ २, १०८^०, -ता काथी ५,
 ३, ३३, ८, ६, १४x; आपथी,
 या २, १४, -नानाम् आपथी ५,
 १, ४, माथी ४, २, ३, वाथी,
 -नाभि वाथी १७, १, २१,
 आपथी ७, ४, ५x; वीथी,
 -तासु शाथी १२, २४, २४,
 वाथी २५, ११, १४, आपथी
 १५, ३, ७x, माथी.
 सैकत- पा ४, २, ७५, ५, २,
 १०४, १०५, ३, १०५, -ते वैष
 ३, ८, १.
 सिक्क-शर्करा- -रा वृदे ७, ७९
 रसिकार- पा ५, २, १०५
 सिक्ता तल- -ले वै ५ १ ६
 सिक्ता-पारा- -रा विष २०, २३
 सिक्ता-धृति- -लेन वैथी १, १३-
 ४, १०, ५ ६
 सिक्ता(ता-अ)थ- -थैम् वैथी १,

१: १
 सिक्ता(ता-अ)लम्भा- -नम्
 वाथी १७, ३, १६.
 सिक्ता-वत् आपथी ५, १०, ३.
 सिक्ता-वत्- पा ५, २, १०५
 सिक्तावती- -नी अय १, १७.
 सिक्किल- पा ५, ३, १०५.
 सिक्को(ता-उ)त्तर^०- -नम् वाअ २,
 ८, ६.
 सिक्को(ता उ)पकीर्ण^०- -नम् वाथी
 ८, ५, २५, -ले काथी १६, ३,
 १३, २६, १, १४.
 सिक्को(ता-उ)तोस^०- -ते आपथी
 १५, ३, ५; वीथी २९, ११:
 २३, माथी ११, २, १३, द्विथी
 सिक्क- ✓सिच् द.
 †सिक्कम^०- -मा: वाथी ३, ७६:
 ३०.
 †सिक्कवा^० आवमं २, २२, १०, द्विथि
 १, १४, ४.
 सिक्क- पाठ २, ७.
 ✓सिच्, ऋ^० पाथा तुदा उम
 शरयो, सेचये, सेचति श्व ४८,
 २३४
 सिक्कति वीथी ६, १९. ६,
 वाथी, कोय १, २१, ७.
 सिक्कति काथी ९, १२, ६, १९,
 २, ८, शुभ २, ४२५, या १०,
 १३, †सिक्क > था वेदा ३,
 १०, †सिक्के वाथी २, ५, १,
 वैथी १८, १५: १०, द्विथी

a) पामे वैष १ सिहो टि द । b) तु पाका । सिद्ध गति- इति भाषणा. प्रम् । c) < सिंह-
 गति-क- । d) = मास्य विशेष । वस । e) तु पाका । सिन्धु-वत्- इति भाषणा प्रम् । f) <सिद्धपथ क- ।
 g) = दृष्टक विरोध । h) मलो वम । i) = देश विशेष- । सिंहकोष्ठ- इति पाका । j) = दक्ष मुता- ।
 k) शोषण विरोध- । l) व्यप । m) वैष १ द । n) = [उपचाराद्] देवता- । o) वट ।
 p) तुम् वा वस वा । q) विष (अर्थः [सायक-]) । सिक्कत. इति गृह्ये, सय वीथी १५, १५: १ । सिक्क-
 कण्ठोदकम् इति । r) सिक्ता इति शोध (तु भू [XXVII], पाय ३, ७, २ नाय २, २७ ४ च) । s) शुभा ३,
 ४६ पा ३, १, ५३, ७, १, ५९, ८, ३, ६४, ९५, ११२ परामुष्ट द । t) पामे ५०० ० द ।

२१,६,२४; ऋषभौ ५, ८, ५; वीथी २, १६: २; द्विथी; ऋषभत्, > वा या ५, २६; ऋषा ८, १५; सिद्धामहे वाथी २, १, ५, ११; ऋषभसिद्धत् आथी ४, ८, ३; भाथी ४, १२, २; बाधुथी; ऋषिद्धत् अथं २: ६२१; सिद्धेत् वप्र १, ४, ९; ३, ४, १०. सिधित् वीथी १८, ४५: २१; सिधित् ऋषा ५, २५१; ऋषिसिधु: वा २०, १३; ऋषा ५, २९. सिधित् वाधुथी ४, २८: ३; ११६: ३. सिधेत् वप्र ४, ११.

सिध्-क: अथ ४८, ११६११; -कम् आथी ३, ११, ६; वीथी ३, ८, २०१; आथथी; वाधुथी ३, ३९: ११; १२; वा १४, ६. सिध्-संघट्-, सिध्-संघट्- पाग २, २, ३१. सिध्-सोम- अम् वीथी २१, ११: ६. सिध्त्वा वीथी २०, ४: २६××; आपव. सिध्त्मान- नानाम् वप्र १, १०, ११. सिध्त्- अथ वैथ ५, ५: ५. सिध्त्वि-> ऋषि-संघट्- संघ: वा ७, २४. सेक-कम् वैथ ३, २३: ६; विध २८, ४८; वा ३, ४१; -केन

विध २३, ५६. सेकवै वीथी १७, ४३: १५; आसिध् १, ४, १: ४; २, ६, ६: १२. सेकप्र- पा ३, २, १८२. सिध्- अथ ४८, १२. सिध्- सिक् आथं १, १३, ९१; वाय ३, १५, १६; वीथ ४, २, ६; माय २, ३०: १०; द्विथ १, १६, ३; सिध्मा: आथथी १४, २२, १; २०, १७, १३; द्विथी, सिध्म् अथ २३, २; वीथ १, ७, ५; सिध्त् वाय ३, १५, १६; आसिध् ३, ८, २: ३४; वीथ; आपथ १, १६, २९; ३१; सिध् वीथ ३२, २२.

सिध्-वात्- अम् आपथ ९, ३१; वैथ ५, ३: १; ७, २: ११; -ता: आसिध् ३, ४, २: १५; -ताद् वैथ ५, ५: ५; -तेन आसिध् ३, ४, २: १४; १०, १: १२; वीथि; वैथ ५, ५: ४; वीथि १, २, ३७. सिध्- (> सिध्-संघट्- वा.) पाग ८, २, ९. सिद्धाद्यथ्य-, सिद्धास्थ- पाग २, २, ११. सिध्- (> ऋषि-संघट्-) √सिध् पाथा. भ्वा. पर. ऋषादरे. सिध्- √सि (वथ.) द. सिध्- अम् विध २०, १६; वा ९, २६१; -ताथ अथथी २०, १२, ४; -ते वीथ ४, ५, १०१; -तैथ

आथथी १७, ५, ३; द्विथी १२, २, १५; -ते: अथ ५, २, ३. सिध्-चन्दन-कर्म- अम् अथ १९, ३, २. सिध्-चूर्ण- अम् अथ १९, ३, ४. सिध्-धुण- अम् अथ ३८, १, ३. सिध्मास्यदानवात्- -री अथ ६८, १, ३. सिध्-सारत्-विधात्-कृष्ण-नील-लो- द्विथ-नीर- -ता: पिं ३, ६५. सिध्-सिध्- -अम् संघ १२६: २८. सिध्- (त-इ)त् (>) वा- -ता अथ ५८, ४, १५.

सिध्- -अम् संघ १२६: ५१६. सिध्- (> अथ- वा.) पाग ४, ३, ८०. सिध्-सिध्-संघट्-पादकम्^१ वीथी १५, १५: १. सिध्त्वा √सि द. √सिध् पाथा. भ्वा. पर. मती. शाले माथले च; दिवा. पर. संघट्, पृथेपति आथी २, १२, ३^२; आपथी ५, ८, ६^३; वीथी^४ २८, १: १८; २: २३; माथी ५, ४, ६^५; माथी^६ ५, १, ६, ४५, ७, ४१; वीथी^७ १, ८: ६; २०, ३३: ९, द्विथी ३, ३, ५^८; आसिध् २, ७, ९: १६^९; माय ३, १८: २०^{१०}; वीथी^{११} ४६, २३; १३०-१३१, ३; विध २, १४; पृथेप > था ऋषा ७, २३; सेधाम

१) द. पापम. १) वीथ १ द. १) तदुत् न सिध्मासि > सप्र. आपथं १, १३, ९ वीथ ४, २, ६ द्विथ १, १६, ३ इति इति पागे. २) सिध्- इति पाथा. ३) द. पाथा. पाथि., जिष्वास्थि- इति पसे पाथि., पाठदायनमते च पाथि. *ज्ञास्योरीरवीन- इति (द. पापम.) ४) = धेत-वर्णः, तद्वत्- वा। ५) *अपदाम् इति संभाषेत। ६) = विनायक-विशेष-। व्यु. १। ७) सप्र. माय २, १४, २ अस्मिन् इति पागे. ८) = मरुत्-विशेष-। ९) अथ २, १९, २९ अस्मित् इति, सुमित् इति धक. १०) द. २ २६४८ पृ। ८. [वाधुथी.] *अम्, क इति विभाषणः। ११) वा ६, १, ४९ (द्विधासंघट्- इति पाथा.); ८, ३, ११३ पराष्टः द. १) पापम. वीथ २ सिध्ति वा १, ७९, १२ टि. द. १

कौसु १७, ८.
 सिध्पति वीथी २४, ३५. १^०,
 ११xx, वैताथी, सिध्पती ३
 वीथी २४, ३५: ८^३, ३७:
 १५xx, सिध्पति गाण २,
 १६, ५, भाण २, २८: ४; मण,
 सिध्पतु द्राथी ६, २, २; काथी
 २, १०, २, सिध्पेत् निम् १०,
 ५: ५, ८, १६, गोण १, ४, २५,
 सिध्पेषु माण २, २८ ५
 सिध्पते अण २६, ३, २, आणो
 ७, १५
 सिध्, द्वा- द्वा वीथी २१, ४ ३,
 माथी २, ५, ५, १६xx, हिथी,
 -द्वम् आथी १०, ५, १७, १२,
 ८, ३१, आणथी, -द्वस्म आण
 १, २, १, कौण ३, १०, २, गाण,
 नाण ११, ३, -द्वा माथी १, ५,
 ५, १९, ७, १, ४xx, वैथी
 १, १६ १, ८, ३ ९, तनिम्
 १ २५^०, -द्वा: आण ३, ४, १^०,
 कौण २, ५, ३^०, गाण ४, ९, ३^०,
 अण ४३, १, ३४^०, वीथी ५
 २^०, -द्वा नि आथी १०, ५, १७,
 निम् १०, ९ २२, -द्वायाम्
 वा २, २, -द्वे आथी २, ७, २१,
 वीण १, २, ५५, द्राण, आण
 २, ३, १०, पावा १, १, १२, ५, १,
 ५५, पाणवा १, -द्वेभ्यः अण
 ४३ १, २२^०, -द्वे आथी २,
 १, २, वीथी २०, १ ४६, -द्वौ
 निम् १०, ८ ३
 पसिध्* पा ६, ३, १९
 सिध् क्षेप- श्रेण शेष ११४
 सिध्-गति-

सिध्-अ- -अम् पावा १, १, १२,
 २, ३, २xx; -अस्म पावा १, २,
 ३२; -अत् शीच ४, ६, पावा
 ३, २, १५०, ३, २०xx.
 सिध्-अचन- -अम् पावा ८, ३,
 १३.
 सिध्-विपर्वास- -रा. पावा १,
 १, २६.
 सिध्-शुष्क-पण-अण- -अणेषु पा
 ६, २, ३२, -अथै वा २, १, ४१.
 सिध्-स्वभाष- -वानाम् आथी
 १२, ४, १७.
 सिध्-दविस्- -रिपाम् वीथ २,
 ६, ४५
 सिद्धा(द-म)मण- -ना वा ३,
 ४, २७, -नो वा ३, ३, १५४.
 सिद्धा(द-म)भिषेक- -कः अण
 ३३, ७, ६
 सिद्धा(द-अ)धे, धी^०- -थी अण
 १, २७-३०, १, -धी. आणो
 ६, ११.
 सिद्धार्थक^३- -ना: अण ४, १, २३;
 -कान् श्रेण २, ६: ४, -कै:
 अण १, ४४, १०
 सिद्धा विद्यापटिक^३- -रुक्त्व.
 उमिम् ७ ४१^०, -द्विक्त. निम्
 १, ३ ३^०, १३, तनिम् १ ४८.
 सिद्धे(द-अ)ध्या^०- -श्ला वीथ
 ३, १, ५, १३^० कृ.
 सिद्धो(द-अ)पमा- -मा या ३,
 १६
 सिद्धो(द-अ)पाय^०- -थौ निम्
 १, १२ १२
 सिद्धि- -द्वेषे अण २४, ४, ४, ७०^३,
 ३, ३, -दि. वैताथी ४, २३,

निम्: -द्विम् तु १८, ६, गाण
 ४, ५, १६, भाण, -द्वया गाथी
 ६, १५, ६, -द्वैवै वापथी १५,
 ४, ६, ७, ८; वीथी.
 सिद्धि-अ- -अ अण २१, ७, ३;
 -अम् अण ३०^३, १, १३.
 सिद्धि-आरक- -क. अण २१, ७,
 २, ७०^३, ३, १, -अम् अण ३,
 ८, १८; आणो ५५
 सिद्धि-कारण- -अम् विध १६,
 १८.
 सिद्धि-कारित- -अम् निम् ६,
 १२: २८.
 सिद्धि-अ^३- -अ अण २१, ३, ३,
 -अम् अण २१, ७, ४, २५ २, २
 सिद्धि-दर्शित- -शी निम् १०,
 ११ १५.
 सिद्धि-भाग- -भाक् अण ३६,
 ३०, २.
 सिद्धि-कक्षण- -अम् अण ७०^३,
 २, २, ४-५, ३.
 सिद्धि विपर्यय- -अ: अण ११,
 ६७
 सिद्धि-हेतु- -नो आणो ७, १२
 सिद्धय(द्वि-अ)धे- -धम् गाथी
 २, १८, पावा १, २, ३२, आणो
 १४, ६, -धे वापण २३, ४, ५.
 सिध्- पा ३, १, ११६
 सिध्- पाठ २, १३, -अणम्
 आणो १७, ७, ४, वीथी ३, ३:
 ५, वैथी, वा ९, ३८ कृ.
 सेध्व- -अन्तम् वीथ ४६, २३.
 १सेधा^३- -पा ३, १०-४
 सिध्म(पमा)^३- पाठो २ ३, २४३,
 पाण ५, २, १७, -पमा आणो

a) = कृते-विशेष-। b) = देवभोनि-विशेष-। c) अण । d) पृ २६४८ b द । e) अण ।
 f) = औरसर्ग-। g) पृ २२७६ तस्य विद्यापत्कय, पट्टक. इति मेठी । h) = कृति-विशेष-। पू.
 सिध्म । १) तप < √ वा (पाने) । १) शेष १ द । k) = एतन्-भेद- इति पाठम् । l) = विधय भेद, तदर्थ-।

२०, १४, ६.

सिध्म-ल-, ष्वच्- वा ५, २, १०.

सिध्म-, सिध्म- ✓सिध् द.

सिध्मक- पाग ६, ३, ११६.

सैध्मक^{१)} -कम् आपथी २०, ३,

८; बौथी १५, १ : १६; वाथी;

बौथ २, १, १५; -केग चापथी

२०, ३, १२; बौथी १५, ५ : १;

२८; द्विथी १४, १, ३३.

सैध्मकी- क्विम् द्विथ १, १४,

५.

सिध्मक-मुसल- लेम वाथी २०,

१, ३८.

सिध्म(क>)का-क्(न>)ण- वा

६, ३, ११६; ८, ४, ४.

सिन्- ✓सि(नपा.) द.

सिनीवाली^{०)} - पाग ४, १, ४१;

-णं-लि आथी १, १०, ७; शथी;

आपथी १४, १७, ३१^{१)}; द्विथी

१५, ५, ३१^{१)}; -ली आथी ६,

१४, १५; बौथी; या ११,

३३^{१)}; -लीम् आथी १, १०.

६; आपथी ३, ९, ४; बौथी;

-रुया: आथी ८, १२, ९;

णंआपथी ४, १३, ३; ३; आथी,

द्विथी २२, २, ६७, -रुयै

बौथी ८, २२ : १०; १२, ४ :

२२xx; माथी.

सिनीवाली-देवता-> ष्व(स्य>)

रुया- रुये श्रुग २, ५७.

सिनीवास्य(ली-आ)दि-देवता-

-ना: अथ ७, ४९

सिनीवालु(ली-उ)ज^{०)} -रुम् श्रुग।

२, २१.

सिन्धूर- पाठ १, ६८^{१)}.

सिन्धु(यत्रा.)^{०)} - पाठ १, ११; पाग

४, १, १३३^{१)}; ३, १३३^{१)}; -न्धव:

णंबौथी ८, ३ : ४xx; वाथी;

अथ ४८, ७६^{१)}; निप १, १३३^{१)};

या ५, २७^{१)}; -न्धो आपथी

१७, २, ६१^{१)}; -न्धु: निम् १, ५ :

६^{१)}; आपथी १, १०, ७^{१)}; कौच;

-णंन्धुम् आथी ३, ७, १५; ८,

१, १८^{१)}; बौथी २८, १० : ८;

या २, २५; ७, २०; १४, ३३^{१)};

३४; -न्धुम् सु २६, ४; कौम् ५,

१^{१)}; -णंन्धुम् बौथी १०, ५९;

१५; द्विथी १२, ४, १३; बौथ

४, ३, ७; माथ १, १३, १५; वाथ

१५, १०; या ६, १७; १०, ५^{१)};

-न्धो: आपथी १७, १८, १^{१)};

निप ८५, ५०; अथ १२, ४४^{१)};

या १४, ३३; -न्धी या ९, १०.

सैन्धव(यत्रा.)- वा ४, १, १५४^{१)};

२, १३३; ३, ३३; १३; पाग २,

४, ११; वावा १, ३, १०; -रुम्

अथ १, १५^{१)}; -वेयु अथ ५१,

१, ४^{१)}.

सैन्धवी- ऋी: आपथी १८,

१३, ३, द्विथी १३, ५, १४.

सैन्धवक- वा ४, २, १३४.

सैन्धवायन- -ना: बौथीथ

३६ : १.

सैन्धवापनि- वा ४, १, १५४.

सिन्धु-क- वा ४, ३, ३२; वावा १,

३, १०.

सिन्धु-शिव^{१)} -दित् ऋथ २, १०,

७५.

सैन्धुशिव^{१)} -रुम् निम् ७, ५:

१३^{१)}.

सिन्धु-देश- -ना: वैथ २, ९ : २०.

सिन्धु-देवत- -रुम् अथ ३, १३.

सिन्धु-द्वीप^{१)} -य: ऋथ २, १०, ९;

शुं ६, १५३; श्रुग २, ४०; ५४;

साथ १, ३३; अथ १, ४ : ७,

८९; १०, ५; १९, २; -पा:

साथ २, ११०७.

सिन्धु-पय^{१)}-

सिन्धु- पागम ४३१.

सिन्धु-वा, सा^{१)}मन्^{१)} -म दाथी

२, २, ३५; लाथी १, ६, ३१

सिन्धु-सौवीर- -राथ शंथ ७, -राथ

अथ ५०, २, ५.

सिन्धुमित्र^{१)} - (>सैन्धुमित्रिक>)

का, की- वा.) पाग ४, २, ११६.

सिपल- ३श्रुग- दि. द.

✓सिम्, म्म् ✓वम् टि द.

सिम् पाग १, ४, ५७.

सिम^{१)} - पाठ १, १४४, पाग १, १, २७;

कि ७९; ८०; -रुसै वा ४,

११^{१)}.

सिमा^{१)} - मान्य: निम् ३, १२ : ४१.

सिमार्ग-निपथ^{१)} -य: लाथी ७,

४, १; श्रुग ३, ११ : २२; १२:

१७; -षरुप लाथी ७, ४, १२.

सिमिठ- पाठगु २, १९.

सिरा^{१)} - पाठगु २, १३; -रु वैथी

१३, १० : १२; -ना: वैथ ५,

१२ : ६; ११.

a) = वृद्ध-विशेष-। b) तद्विकारीयः अणु प्र.। c) वैप १ द.। d) शोचः वैप १, ६३-० म् द.।
 e) धत्त.। f) <✓स्वप्न् इति। g) = देव-विशेष-। h) = छन्दो-विशेष-। i) पाठः ? सिन्धी इति
 शोचः (श्रु सवा. शौ ६, १, ३)। j) व्यप.। k) विर. (सूक्त-)। l) = श्राप-विशेष-। उत. उप. <✓सि
 (निषाते)। m) = साम-विशेष-। n) वृ २६४८ ० द.। o) लाथी. पाठः। p) व्यप. इति म्।
 q) सवा.। r) = महात्तम्नी-कच्.। न्यु. ? <सोमन्- इति ऐमा ५, ७। s) = सिरा-।

सिरि^१ - रि ष्य ४८, १००^१
 सिरिधा^२ - (> सैरिधा १२२)
 क- पा) पाय ४, ३, ११८
 सिरि^३ - री वीष २, ६, ३४^३
 ✓सिन्त् पाषा तुदा. पर उ-ळे
 सिर^४ - लम् कौष्ट ३, ११, ४४^४,
 -लाभि कौष्ट ३, १०, ३५, -ले
 वीष ३, २, ११
 सिधे(त-उन्नु)>न्डा^५ - उडा
 वीष ३, १, ५, २, ११^५
 सिलाञ्जला^६ ->ञ्ज (ता-अ)प्र-
 -माणि कौम् ५१ १६
 सिलिक^७ ->क-मन्वम^८ - मा. या
 ४, १३, -मास या ४ १११^७
 सिलिन्ध्र- पाठभो २, ३ ३०
 ✓सिबू^९ पाषा दिवा. पर तन्नुसताने,
 सोम्यति आपथी ११, १०, १५,
 सोम्यत आपथी ११ ८, ९, हिथी
 ७, ५, ३१ ७, २९, सोम्यन्ति या
 ३ ७, षीस्यन्त आपथ २, ११,
 १०, आसिप २, १, ५ १४, वा
 ११, ३१, षीस्यन्त्व आपथी
 १६ १४, ५ वाथी २, १, ५ २०,
 वैथी १८, १२ १३
 स्पू^{१०} - स्पू काथी ८, ४, १८,
 आपथी ११, ८, १, ५××
 स्पूत, ता- तम् वीथी १२, ८ ७,
 -षीवा आपथी १६, २६, ६, माथी,
 वाथी २, १, ७, ३१^{११}
 स्पूवा(त म)त- उ-ते काथी
 ७, ३, १७
 स्पूवा आपथी ११, ८, १, ५
 सिवस- पाठना ३, १२०

सिपम् हिथी १७, ५ २६
 सिपाधयिपत्^{१२}, षिपु- ✓साध् द
 सिपासत्- ✓सद् द
 सिपुञ्चु- ✓सुद् द
 सिस्त्रति^{१३} निव २, १४^{१३}
 सिस्त्रते ष्य ४८, २१^{१४}
 सिह^{१५} - पाठदु ५ २८
 रसीकर^{१६}-
 रसीकर^{१७} - (> सैकोय-)
 सीकमाण- ✓सह् द
 सीता^{१८} - पाठदु ५, २९, -वा आपथी
 १६ २०, ७^{१९}, वीथी, वृदे १, १२९,
 माथि १२, १०, -वा काथी
 २१ ४, १, आपथी १६ १९, ५,
 वीथी १०, २५ ६, १३, माथी
 ६ १, ५ ४१, वाथी ७, ११६
 २, वाथी २, १ ५, ४, ६,
 वैथी १८, १६. १४, हिथी ११,
 ६, ३५, १२ ८, ५, हिपि १५
 ७, ८, कौम् २०, ९, अद्य,
 -ताम् वीथी १०, २५ ४, १७,
 २८ १४, २५, ३० १ माथी
 ६, १, ५, ४०, हिथी ११, ६ ३६,
 पाय २, १३, २, १७, ९, आसिप
 ३, ८, २ ८, वीपि १ १५ १९,
 गोष्ट ४, ४, २८, कौम् १०६,
 ३××, वष ३ १ १०, अद्य, अद्य
 ३, १७, -ताम्द ताम् माथी
 ६ १, ६, ६, -ताया अद्य १४,
 ५, गोष्ट २ १, ४, कौम् १०६,
 ४, -तायाम् आसिप ३ ८,
 १ १०, वीपि १, १५ २१,
 कौम् २ १२, -ताथै पाय २

१७, १०, अद्य २, ४, ५७, वृदे
 ५, ९, -तायु माथी ६, ९, ६, १८,
 -षींते माथी ६, १, ५, ३९,
 आसिप
 सीता गोष्- ष्कृम्य पाय २, १७,
 १३
 सीता देवता->ष्य, त्या- षम्
 अद्य ३, १७, -त्या शुभ २,
 १२४
 सीता वृन्वा(ष्य-अ)पहरण- षी
 पाय ३२३
 सीता(ता-अ)न्- षी कौम् २०,
 १०
 सीता(ता अ)नराष्ट- ष्वा हिथी
 ११, ६, ३७^{२०}, -लाभि आपथी
 १६, २०, ७^{२१}
 सीता(ता-अ)भेपण^{२२}-> षीव^{२३}-
 पा ४, ३, ८८^{२२}
 सीतामन्व- ष्ये वाथी २, १, ५,
 २२
 सीतामन्त्र- षम् आपथी ८, ५
 १०
 सीतामात्री- षी वीथी २४,
 २४ १२, -षीम् आपथी २
 २, ७, माथी २, २, ६, हिथी
 १, ६, ९४
 सीता यण- ष्ज पाय २, १७, १,
 -अस्य वाय ७१ ७, -अ पाय
 २ १३, ७
 सीतायज्ञ-पालयज्ञ प्रवण प्रन्-
 वन पर्थयण- षीवु गोष्ट ४, ४,
 २९
 सीता-लोष्ट- षम् वीष्ट ४, ४, ४.

a) = मप । b) द्व पाणम । [११०] मागडा । c) नाप (अदास ल्) दाणुति इति पाणम) ।

d) षव १ द । e) = सिल । f) पाणे ६३२ h द । g) = षुणि विरोध । h) वा ११, ३१ वा ८, ३,
 ११५ पराण्ट द । i) स्पू इति पाठ ? यदि षोव (त मे २, ७, १६) । j) स्पूतायव पाठ ।

k) = निद- । l) वृ २४०२ द । m) वृ २४०४ III द । n) परतरं पाणे । o) वत पूष = मेधिली ।

p) = इति विरोध । q) द्व पाणम ।

शांश ४, १०, ३, वाश
सीता-शिरस्- -र. सुकौश २०, २२.
सीतो(ता-उ)दृष्टत-मही-यर-
-रम् विष ९, १, १०.
सोव्य- वा ४, ४, ११, पावा १, १,
७२.

सीदत्- प्रम् ✓छद् द
सीधु- पाग २, ४, ३१.
सोपु-व- पावा ३, २, ८.
सीपाल- (> हिर- पा.) पाग ४,
२, ८०.

सीर(ल>)ला- -०ले भाति ४३१.
सीम्- शांशो १८, ८, ५१, निष ४,
११, या, पाग १, ४, ५७

सीमन्, मा- पाठ ४, १५१, -मा
वाध १६, १८; या १, ७४,
-माम् वीथी २२, १२-१५,
बप ३, १, २, अण, विष ५,
१७२, -मनः आप्य २, १, ४,
द्विष २, १, ११६, या १, ७,
-सि आप्य १, १, १६, द्विष १,
३, १६.

सीम तस्य (.) आशो ४, ६, ३,
शांशो ५, १, ५, या १, ७, ४
सीम(म-अ)न्त- पाठमा ३, १२०,
पाग ५, २, ३६, ६, १, १०९,
पावाम ६, १, १४, -न्त वाध
१४, -न्तम् आप्यो २२, २८,
११, वीथी १८, १९ ६१,
द्विथी २३, ४, ४५१, आण १,
१४, ४, कौश, -न्ते माण २, १४,
२६१, वैष ३, १२-४, शौच ३,
४३१

सीमन्त-करण- -वाम् गोश २,
७, १
सीमन्त-वाम् आणिय २, १, ५: ५,
आणय १४, १०, १६, ५
सीमन्तित- वा ५, २, ३६.
सीमन्तो(न्त-उ)द्वपन्- -न्तम्
आण १, १४, १, वीश १, १४,
१; शांश, -ने वीश १, १, ५;
शांश १, ५, २; पाण १, ४, २
सीमान्त () या १, ७
सीमा(मा-अ)विप्रमण- -न्ते शौच
३११.

सीमा(म-अ)न्त- -न्तम् वाप ११,
१५ वीथ १, ४, २२.

सीमा(मा-अ)न्तर- -ने द्विषि २३ ४
सीमा-भेत्- -नारम् विष ५, १७२

सीमिक, फा (वमा) १ पाठ २, ४३,
-कस्य अण ४८, १२०, -क
या ३, २०४, -कानाम् अण
४८, १२१, या ३, २०.

सीर(वाम्.)- पाठ २, २५, -र हुदे
५, ८४, वा ९, ४०४, -रम्
शांशो ३, १८, १०, काशो ५, ११,
१२, १७, २, ७४४, आप्यो,
कौश २४, ३५, ९४, १७, १२०,
१२, १२६, १३, -रस्य कौश ३,
१३, १०, शांश ४ १३, ४, -प्रा
काशो १७, २, १०, आप्यो १६,
१८, ५, वीथी, -ने माशो ६, १,
५, ३५, कौश ३७ ६, -रन्ते वाशो
२, १, ४, ३८, वीश ८३, १८,
-रन्ते. कौश ३९, १०^२
सैरिक- वा ४, ३, १२४, ४, ८१

सै(र>)शो- -री आप्य १,
२, ३७; द्विष १, १, ६८.

सीर-कृत-वात- -नानि वैष ३, ५,
७

सीर-देवता-> श्व (श्व>) श्वा-
-न्ते श्रुम् १, १२३.

सीर-वति- -ति आप्यो ६, ३०,
२०, वीथी ३, १२-२८, माशो
६, १८, ७, वाशो १, ५, ५, ८,
माशो १, ६, ४, २४, द्विथी ६, ८,
१, पाण

सीर-योग- -वाम् कौश २७, १.

सीर लङ्क- एम् वाधुथी ४,
१९: ४४, ११६-१, -रन्ते
वाधुथी ४, १९-४५

सीर(र-अ)धिक- -कम् अशो २५,
४

सीर्य- पावा ४, ४, ७६.

सीर-> सैर्य-पा) पाग ४, २, ८०.
सीरक-> सैरकायण- पा) पाग ४,
२, ८०

सीरवाह- -हा कौश २, ६, ११.
सीर(र>)शो- -रा आप्य १, ६,
१३, -रा अण ४८, ७६, निष
१, १३.

सीरलमाच(र>)शो- -वी कौश
३, २, ६, शांश ३, ३, १.

सीरवनी- -न्वाम् वैष ५, १२-१९.

सीर(व>)शो- -वाम् माशो २, १,
२, १२

सीस, सा- पाग ४, ३, १५२, -सम्
काशो १५, ५, १, २४, आप्यो,
-सस्य शौच १६४, -सा श्रुम्

a) लृप > ऋ > पस उप = ३कर-। b) शोशु-। c) उप < ✓पा (पाणे)। d) = [वाश-
रूप-] श्रोपवि विशेष- (हु सा 1.10.1.2.4.5.6.7)। e) वैष १ द्र। f) = सस्कार-विशेष- (आण प्रम्)।
g) हु पागम। h) = सस्कार-विशेष-। i) = उपचिक्षा-। j) = सीर- (वैष १ द्र)। k) = हलप-
इति दारिल। l) = रज्जु। m) = गोशुल-कृत इति दारिल। n) बस। o) = रसीशु- (वैष १ द्र)।
p) पाणे वैष १ मनुतापनी शो ३, १२, २ दि द्र। q) = सस्कार-विशेष-। r) = वसन-वशा- (हु, शा 1.10.1.2.4.5)।
वैष-प्र-१६

३, ८१^१, -सलाम् वीथी १५
 १५ ७, -सामि कौस् ८, १८,
 ३४, ५, ७१, १५ -सामि
 आपथी २०, १८, ७, वीथी १५,
 ३० १८, -सैस काष्ट ४५, ७,
 माष्ट २, १, १०, कौस् ७१, १६,
 ८६, १९, -सेन काथी १४, १,
 १४, १५, ९, २३xx, आपथी,
 -सेसु कौस् ३४, ४
 सैस- पा ४, ३, १५४
 सीस क-> क प्रु-कास्य-वाप्र-
 रूप- न्यानाम् सुच ३३^६.
 सीस कालायसा(स-आ)मरथ^१-
 -म वैष ३, १४, ७
 सीस-नूयं- नानि कौस् ४७, २३
 सीस वाप्र(म आ)यस- सानाम्
 माथ २७७ ७
 सीस प्रु-कास्य वाप्र(म आ)यस-
 सुवाल^१- नानाम् सुधप ८७।
 १४^३
 सीस नदीसीस^१- न्ने कौस् ८, १८
 सीस माप^१- य गौष २२, २५^१
 सीस मापक^१- कम् धध ४०१^१
 √सीसर^१- ०२ आपम २, १६, ९,
 १०, भाष्ट २, ७, २३, २५, दिष्ट
 २, ७, २^१, -२ पाष्ट १, १६,
 २४^{१६}
 √सीसरम^१- ००म आपम २, १६, ९
 १०^१, भाष्ट २, ७ २३, २४,

दिष्ट २, ७, २^१.
 √सीसरिवत्^१ दिष्ट २, ७, २^१.
 √सीसरिवत्^१ आपम २, १६, ९,
 १०, भाष्ट २, ७: २४, २६
 सीहर^१- (> सैसरेय-)
 सु, सु^१ पाथी २, १, २९, ८, ७xx,
 पाथी २, २, १४xx, ५, १०,
 २१^१, काथी, आपथी १६, १५,
 ८^१, वीथीका २६^१, आपम २
 ३, १^१, कौस् ५, ५, ५^१, दिष्ट
 १, ५, १^१, अष्ट २०, १२, १^१,
 या १, ३, १०^१, ३, २१xx, अष्ट
 ८, ४, पा ६, ३, १३^१, ८, ३,
 १०७^१, पाग, पावाग १, ४, ५८,
 पावा १, ४, ६०, ७, १, ६८,
 सो पा ६, २, ११७, १९५
 सुसर्वा(वै-अ)थं- -वांष्ट पा ७, ३,
 १२
 सुसर्वा(वै अ)थं दिक्शब्द-
 अंम्य पावा १, १, ७२
 सु(सु-अ)पमान^१- नाष्ट पा ६, २,
 १४५
 √सु^१ पापा स्वा उभ अगिष्ये,
 √सुने^१ आथी ८ ११, १, सुम्
 १४ ३१xx, निम्, सुनोति
 वीथी १८, ४५ ३८, २६, २७-
 १०, या ६, १९^१, सुग्विष्ठ
 आथी १३ १५ २७, ३, सुनोतु
 या ११, ४३ √सुतु आपथी

१६, २६, ३, वैथी १८ १८ ९,
 दिथी ११, ७, ४५, सुनुत दिधि
 १८: २^१, सुनोत->वा अष्ट
 ७, ३३^१, √सुनवाम आथी ७,
 १, १४, आपथी १६, १४, ४,
 वीथी २८, १०-९, वैथी,
 √सुनोत् आथी १५, १५ १३,
 वीथी, सुनुयाष्ट वाधुथी ४,
 ४० ११, सुनुतु दाथी ११,
 ४, २५^१, आथी ४, ४, २४^१, १०,
 ५, १०, १०, ७, निम् १०, ९
 २३
 सुपाव पाथी १०, ५, ११, १३,
 शुदे ६, १०२, सुमा ६, १०^१,
 √सुतुमा^१ आथी ५, १०,
 २८, ७, २, ३xx, आथी
 सूयते आपथी १४, १८, १^१,
 √सुसूयत आपथी २१, २०, ३,
 दिथी १६, ६, ४१
 √सुसावि आथी ५ ५, १४, ६,
 २, २, ७, ८, ३, आथी
 रसवन्- नम् आथी ५ १२, ८,
 ६, ३, १९^१, आथी, √सुथ ४८,
 १५^१, १४१, निच ३, १७^१,
 या ७ १०, १२, ४२^१, -नम्^१
 -नम् वीथी १४ १० ३ २३, ५-
 २४, -मयो आथी ५ २, १०, ५
 १८, ६, २७xx, आथी, -नस्य
 आथी ५, ४, ३^१, ५, १५^१,

अ) परस्पर धमे । ब) इत् > थस । c) इत् इत्वात् अर्थे । d) उप = नदीरेल । e) उप = परिमाण विशेष । f) उप मत् ११, १३३ सैसक चैकमापकम् इति धामे । g) = धमह-विशेष- । h) धामे पृ २०९३ ० द । i) सीसर मन् इति सरकृत् शेष (सु मू [XAVI]) । j) Oldi सीसरि (किण्), इत्-> दत् [द्वि३] इति । k) पाठ^१ (सु मू [XXVII]) । l) पृ २४०४ III द । m) वैष १ द । n) धामे वैष १ १४४९ ० द । o) धामे वैष १ सु ना १२, ६३ टि द । p) सुतापसम् (की १, २३५) इत्यस्य 155-पक्षम् । q) धामे वैष २ इत् प्र सुपोत्प ममा १ ६, १४ टि द । r) वैष १, २४०७ b द । s) स इति पाठ १ यनि शेष (सु Old JO च) । t) पृ ११५४१ नेष्टम् । u) न्द इति पाठ १ यनि शेष । v) = सुम् । w) उप = उपमानवाचि । x) या १ ११, ११, २ पा ८, १, १५, ११७ पराम्ष्ट द । y) व-लोरे रूपम् । z) = सुवन्- (वैष १ द) । a') = यश्- ।

शांभी, काशी १०, २, २१^६,
 -कृवा वीथी ७, ७ ७, वैताथी
 ३२, ७, या ५ २५^६, -नाव
 काथी २५, १३, १६, चुम्
 १, १०^६, १४, -नागाम्
 द्राथी ७, ३, २३, लाथी ३, ३,
 २४, १०, ४, ११, निम्, -मानि
 शांथी ६, ३, ६^१, १४, ५१,
 १, काथी, द्विष १, ७, ७^७,
 -नाग्याम् आपथी १२, २९,
 १३, -नाथ शांथी ७, १४, १२,
 वीथी ७, ५: २३^६, ८, १ १×५,
 गाथी, -ने काथी ५, ४, ३^६,
 ६^६, ९, १०, ६, शांथी,
 -नेऽने आपथी १४, २, ५, वीथी
 ११, २ २२, वैथी १७, २. ७,
 ८: ५, पाव ८, ३, १०६, -नेन
 वाधुथी ४, ३ १३, द्विथी ९, ३,
 २, ३५, निम् ३, ६. ११, -नेम्
 वीथी १८, ५०^६ २४, २०×५,
 निम्, -नेषु काथी ५, ११, १,
 काथी २४ ३, ११, वैथी
 सावन^६ - न निम् ५, ११
 ५, ७, १२: १, -नरथ देज्यो
 ३१, -नाव निम् ५, ११ ६
 सावने(न-इ)न्दु-न्दु-
 भास^६ - सावाम् देज्यो ३१
 सवन-नरणि^६ - निम् गाथी २,
 ४, ३, २१^६, ६, २६, ५, ४, १७
 सवन कल- -व्य द्विथी १८,
 ४, ६०.
 सवन-काल- -र वीथी २२ ४

१, -सा द्विथी १६, ८, २३^६,
 -र्येयु काथी २४, ७, ४
 सवनकाला(ल थ)तिक्रम-
 -ने वैथी २१, ८^६ ३
 सवन-कम- -मंण शुभा १, ३०,
 या १३, ७.
 सवन-नात- -नम् आपथ १, २४,
 ६, द्विष १, ६, ५५, -वानाम्
 वीथी २७, ५ १×५, -तौ
 वाध २०, ३४
 सवन-विधि-शेष^७ - -द मीम्
 ५, ३, १५
 सवन-वृद्ध- -न्द निम् ७,
 ५. २६, -न्दसो निम् ४, ६
 २०.
 सवन त्रय- -नम् आनिष् २ ४,
 ५: २०, वीथ ४, ७, ६, ८, १८,
 -ने वैथीवा ११९, १७७
 सवनत्रय होम- -मर्य आभिष्
 २, ५, १० ४०
 सवन देवता- -ता काथी ५,
 ३, १०
 सवन-प्रवर्द्ध^१ - हां शुम् २, ८
 १, ११
 सवन भक्ति-श्राव^१ - -त्रा निम्
 ३, ६ ३१
 सवन भाद् - -भाव निम् ९,
 ६^६ १६.
 सवन-भास- -राम् काथी ११,
 ७, १८ -सा काथी १२ ५
 १४
 सवन मुख^६ - -र्येयु वीथी २५,

२२ ३, वाथी ३, १, १, ११,
 द्राथी ३, १ ४, लाथी १, ९, ४
 सवनमुपीष- -नम् वीथी
 २५, २०^६ २६, द्राथी ४, १,
 २३, लाथी २, २, ९, -ने लाथी
 ६, ९, १४, -नेषु काथी २२, ९,
 ४^६, २४, ३, १३, वैथी १४^६
 १६, -वै लाथी ८, ९, १६
 सवन-वत् मीम् ५, १, ३०
 सवन वद्-भाज् - -भाज
 निम् ९ ६ १६
 सवन रिधि, धा- ध द्राथी ८,
 ४, १५ १६, लाथी ४, ८, १३,
 १४, -धम् द्राथी ८, ४, १५,
 लाथी ४, ८, १३, -धा काथी
 २३, १४, ५, -धेन द्राथी ८, ४,
 २७, लाथी ४, ८, २२
 सवन रिधि-क्रिया- -न्या काथी
 २४, ७, २५
 सवन शस्त्र() काथी ८, ७, १५
 सवन-स्रथा- -रथयो वाधुथी
 ३, १०२ ४, -स्रथसु वाथी
 १, १, ६, ९, द्राथी ५, २, २०,
 लाथी २ ६, १३
 सवन-सवनि^{११} - -निम् काथी
 २४, ४, १^६
 सवन समीप(त् >)न्ती^{१२}-
 -न्तो लाथी ६ २, २२
 सवन स्रोत- -मा निम् ९, ६
 १७
 १सवना(न-शा)दि^{१३} - दीऽदी
 आपथी १४ १९, २, १८, ३, १०

a) द्व चीस । सवस्व इति अरुम् ? b) पाठो वृ १६७ m द । c) नाप (सवस्व, सज, मास) । इदमर्थे अण् प्र (उ अक) । d) इव > वत् । e) कठ करणि-इत्वेनेन स-नापता द । f) सप 'नकारणिम् <> 'नसंवेदणिम् इति पाठे । g) 'वै का' इति सरद्वर्तु सूचो शेष ? । h) इव > वत् । i) वृ १२४३ e द । j) वस > वत् । k) वैव १ द । l) 'वीयमुक्षेपु इति पाठ ? यदि शेष ३) द्व चीस PW प्रम् । m) = वचन करणि । n) = विद्वन्नि विशेष- । उग <सम्/ईप् (गती) । o) वस ।

हिथी १३, १, ११
 २सन्ना(न आ)दि-> १दि-
 कुव-व- न्यात् पावा ८, ३,
 १०६
 सवना(न अ)धिकार- २ मीत्
 ३, २, ४३
 सवना(न अ)सुकल्प- श्वम् ०
 आप्त १, २५, ११, वीष २, १,
 ४१.
 सवना(न अ)तु(ग >) ग-
 गाम् श्व ३९०
 सवना(न अ)न्त- अन्ते वैश्री १५
 ३६ ५, -न्तेषु काशी १३, १,
 १२, माश्री ५, २, १६, १८
 सवना(न अ)न्तर- रे मीत्
 ३, ६, ३०
 सवना(न आ)रम्भ-भङ्ग- क्ष
 कैश्रीका १४२
 सवना(न आ)रुति- -तिम् वैश्री
 १५ ३८ १३, १६, २२ १५
 सवनीय, या- -य शाश्री ६, ९,
 १, २३, २०, ९, १७, ७, ७, काश्री
 ९ ८, ३, १२, ६, १४, २२, ३, १४,
 आपश्री, -यम् आपश्री १२,
 १८, १२, १७, २३, ४, २०, ९,
 १३, २२, ३, १०, काठश्री, वीश्री
 २४, २२ १०, वीष २, १,
 ३०, -यस्व आश्री ६, ११, ६,
 ८, ६, ४, शाश्री, -या काश्री २२,
 ८, ३६, -या आश्री १०, २, २१,
 १२, ७, १, शाश्री १४ २,
 २०xx, काश्री ४, ६, १६, ०
 आपश्री, -यात् शाश्री ५ ३, ८,
 वैश्री १६, २ ३, -यात् आश्री

१२, ८, ३६, काश्री ८, ८, २५xx,
 आपश्री, -यानाम् आश्री ५, १३,
 ८, शाश्री १४, ५१, १३, १५ १,
 २३, आपश्री, -याम् वैश्री १७,
 ४ १, हिथी ९, ७, ३७, -यात्
 आपश्री १४, ९, ३, १७, ३, हिथी,
 -ये काश्री ५, २०, ६, १०,
 १२, ६, आपश्री, -येन आश्री
 ५ ३, ९, काश्री ३, २, ४, ५ ७,
 -येभ्य वीश्री २५, ११: २,
 माश्री ५, २, १२, २८, -येषु काश्री
 १४, १, २१, वैश्री १६, २: ४,
 हिथी, -ये आश्री ६, ११,
 ७, शाश्री ७, १, १, १६, १xx,
 आपश्री
 सवनीय-कल्प- -यात्
 माश्री २, ३, १, १९, २, १९, २४,
 -यानाम् माश्री २, ३, २, ११,
 -शौ माश्री २, ३, २, ३६.
 सवनीय काल- -के शाश्री
 १४, ४०, २१, आपश्री २२, ३,
 १०, हिथी १७, १, ४७
 सवनीय चर्पा- -र्पा आपश्री
 १३, ४, ७
 सवनीय पात्र- -जामि
 आपश्री १२, ३, २
 सवनीय पुरोडाश- -या
 काश्री १२, २, २, -यानाम्
 वैश्री १९, १
 सवनीय प्रचार- -र. वैश्री
 १६, ४ ५, १३ ६.
 सवनीय-यूपन- -जा आपश्री
 १९ १५, १२, हिथी २३, ३, २२
 सवनीय-यत् काश्री १०, ९,

१३, मीत् १२, २, १७
 सवनीय-वप- -यायाम् शाश्री
 १५, २, १, काश्री ५, ९, १५
 सवनीय-सौम्य-भाव-
 -यात् काश्री १०, ७, १५
 सवनीय हविस्- -वीषि वैश्री
 १५, ४: ७.
 सवनीय-श्लोम- -यात् वैश्री
 २२, २१
 सवनीया(न आ)दि- -दि
 आपश्री १३, ११, ५
 सवनीया(न अ)न्तर- -रम्
 क्काम ६, ६
 सवने(न अ)ष्टि- -ष्टिम् वीश्री १६,
 ३०: ३, १७ २७: २xx, -ष्ट्या
 वीश्री २१, ६: २४, २६, १८
 १७xx
 सवनो(न अ)र्क्य- -र्य मीत्
 ५, १, ३४
 सुव, ता- -त आश्री ६, ४, १०,
 ७, २, शाश्री १०, ४, ५, ११,
 १०, ७xx, आपश्री, वीश्री २९,
 ५. १०९, निष २, ७, -तम्
 आश्री ५, ५, १९, १०, २८,
 १४, ४xx, शाश्री, आपश्री २१,
 ७, १६, वीश्री २६, २२ २१९,
 हिथी १६, ३, ३५, अण्ड
 ८८, -तस्य काश्री ३, ९, ५,
 ५, १५, २१xx, शाश्री, -तम्
 आपश्री १९, १२, ७, वीश्री १९,
 ३: १८, हिथी २३, २, १८,
 -तम् काश्री ५, ५, ३, शाश्री
 १८, ७, १४, आपश्री, -तम्
 आश्री ६, २, १२, ३, १६xx,

द) तु जीस प्रथ । b) पामे दृ १६७ म् । c) पव > सल । d) विग (वृष्टि) उपादि-
 मेरी प्रथ । e) चर्पा ३ । f) मायम् (पथे) < √सु (प्राणिप्रसवे) । g) = देवता- । h) प्यात् इति web ।
 i) प्यात् इति ८ । j) इत् > सल । k) वर १६ । l) = अक्ष- । m) पामे विष १, २४ १८ म् ।
 n) गुणम् इति पाठ १ नदि शोष (तु म् १०, १६, १३, अल च) ।

शाश्री ७, १०, १३; १०, ४, ५; १४, ३, ८; या ७, ८; -पूँतासः
आश्री ५, १६, २; ६, ३, १;
८, ३, ३२; शाश्री; -पूँते आश्री
४, ७, ४; ६, ४, १०×४; शाश्री;
नाशि २, ३, २; -पूँतेन आश्री
१६, ३४, ४; वैश्री १८, २१ :
३३; द्विशी ११, ८, १५; -पूँतेषु
आश्री ६, ४, १०; शाश्री ९, १८,
१; १८, १२, १; श्रम.

पूँसुव-पा^०- न्याः या ११, ८;
-०वी आश्री ५, ५, १९; शाश्री
८, २, ६; वैताश्री २५, २; श्रम
७, ५८.

सुव-भर^०- रः श्रम २, ५, ११;
श्रम २, २३१; ३, ९; साअ २,
२५७, ७५५.

सुव-व(रु>)श्री- श्रीनाम्, नवः
निम् ८, १ : ९.

सुव-ध्रवम्^०- वसे^० शीष्ट ३, ९,
५; द्विष्ट २, १९, ९.

सुव-सोम^०- मान् वीश्री १८,
४९ : १२; -मासः आश्री ९, ३,
२३१.

पूँसु(रु>)जा-नर- नरतः
वैताश्री २१, १; श्रया ३, ९७;
-श्रमः आश्री ७, ४, ३; ८, ५,
१४; शाश्री १८, १०, ३, वैताश्री.

सुवा(त-वा)सुव- > सुतिन्-
-वी शीश्री २६, २२ : २१.

पूँसुते-कर^०- रासः वीध २, ६,
३४.

सुव, र्वा^० - वा ३, ३, ९९; -स्वम्^०

आश्री ४, २, १७; शाश्री १५, १,
१३; १२, ९; १४; आश्री १०,
१५, २; ४^०; वीश्री; -स्वया
माश्री ६, २, ६, २४; वाश्री
२, २, ५, ८^०; -स्वयोः शाश्री
१३, ५, १६; -स्वस्व काश्री
१४, १, २४; -स्वा शाश्री १०,
१, १३; १४, ४०, १; काश्री ७, ९,
१७; काठश्री ७२^०; वीश्री; -स्वा-
काश्री २४, ५, १; माश्री ३, ७, ७;
५, २, १४, २३; द्विशी; -स्वानाम्
शाश्री १०, १, ५; १६, ३, ७; १२,
८; शाश्री १०, ११, ४^०; -स्वानि^०
आश्री ७, १, ३; १०, ८, १^०; शाश्री
१०, १, ४; १३, २०, ३; -स्वामि^०
आश्री ८, २, १५; -स्वाम्यः
आश्री १०, ११, ७, ९; -स्वान्याम्
आश्री १०, १५, ४; -स्वाम्
पूँआश्री ४, ५, ६; ६, १३, १५;
शाश्री ५, ८, ३^०; काश्रीसं २७ :
९; पूँवीश्री ६, १९ : १३×४;
माश्री; -स्वायाः काश्री १४, १,
१३; माश्री १०, ५, ७; द्विशी;
-स्वायाम् आश्री १५, १८,
१; ११; माश्री; -स्वास्तु आश्री
६, ८, ८; १२, ८, ३२; काश्री;
-स्वे^० शाश्री ५, १०, ३५; काश्री
६, ४, २^०; आश्री.

सौत्व^०- न्यः आश्री १२, ५,
११; द्राश्री २, १, १७; शाश्री १, ५,
१४; -स्वम् वैश्री १४, ५ : ४;
२०, ४ : ६; द्राश्री १३, १, १२;
आश्री ५, १, १०; ८, ४, १२^०;

-स्वस्व मीत् ८, १, १४; -स्वाः
आश्री १२, ५, १०; १३; १४;
काश्री २४, ५, १४; निम् १०,
९ : २; ६; -स्वान् आश्री १२, ४,
११; -स्वे शाश्री ८, ८, १.
सुव-अविदास- स्ते शाश्री १६,
२०, ९.

सुववा(त्वा-आ)दि- न्दी काश्री
१४, १, २३.

सुववा(त्वा-आ)द्विष्- -वान्
द्राश्री १, ३, १८; ४, ५; आश्री १,
३, १७; ४, २.

सुववादेव-अमृति- -वि द्राश्री
१, ३, २२; आश्री १, ३, २०.

सुववा(त्वा-अ)ध्वरकल्प- -स्वम्
माश्री ५, १, ६, ३३.

सुववा(त्वा-अ)न्त- -न्ते काश्री
२३, ३, २.

सुववा-नर- रागाम् पावा १, २,
३७.

सुववा-प्रवर्ध- -वर्धः वीश्री १८,
४३ : १५, १६.

सुववा-प्राथ- -ये निम् ६, १ : २०.

सुववा(त्वा-अ)भिररीठ- -नम्
वीश्री २६, ११ : ९.

सुववा(त्वा-अ)भुषण- -ये आश्री
२, ५, ५; -मैन आश्री ९, ५, ७.

सुववा-मास- -नम् आश्री १०,
१०, ६.

सुववा(त्वा-अ)धे- -धामि आश्री
१२, ४, १५; द्विशी ७, ४, ५८.

सुववा-वर्द्राश्री १, ४, ३०; आश्री
१, ४, २६.

द) *ताः इति तासः । ब) उप. <√पा (पाते) । c) वैष १ इ. । d) वर. । e) उप. भाष्य
३, १० : ४ लोमशप्रसे इति, आसिष्ट १, २, २ : १९ स्तुवप्रपसे इति च पाठे. । f) भाष. म. सू. ।
g) = (सरय. कहर- इति ध्रुवमात्रे लदभावे तापूर्ती च) सुववाह- । h) सत्यया इति पाठः । नवि. शोषः (द्व. काठ
२२, ८) । i) सत्र. भाष १३, ४, ४, १ सुववाः इति पाठे. । j) न् इति पाठः । नवि. शोषः (द्व. मा ५, ७) ।
k) लसेदमायर्थे अण् प्र. । l) सौचम् इति पाठः । नवि. शोषः (द्व. भाष्यम्) ।

सुत्या विवृदि- वी नीम् ११,
४,२८
सुयन्-स्थान- वेपु काश्री २४,
४,२४
सुत्ये(त्या-ऽ)ष्टि- -ष्टिम् माश्री
५,१,१०,४६
सुत्यो(त्या ऽ)पसद्- -सद्
आश्री ४ २,१५
सुयोपसन्-शेष- -येण काश्री
२३,१,२
सुयोपसद् गुण-त्व- -त्वात्
आश्री १२,४,२१
सुत्यद्- वा ३ २, १०३, -त्वा
शाश्री १२२, २० १^१फ, वाधुश्री
४,३०:१,६, -त्वान पावा ३,
२,८४
सुत्या वीश्री २३, १२ २५,
वृदे
सुत्यद्- वा ३, २, १२२, -न्त्य
आश्री ७, २, १२१, अप १८^१,
१,५, वा ६, २२, -न्त्या काश्री
३, २, २, २८^१, -न्त्याम्
दिश्री १५, ६, ८, -न्त्याति
वीश्री ८, १४ ३१^१, -न्त्याते
आश्री ५, ३, ७, आपश्री १२,
१५, ८, वीश्री, -न्त्या वीश्री
१६ ५ १०^१, -न्त्यात् वीश्री
५, ७, ८, १, २, शाश्री, दिश्री
२, ८, ४२^१, सुख १, ५७७,
५८४, ११२, ६२७, -न्त्यात्
वीश्री १६ ५ १०^१, अप १, ८,
३, वा १, ११^१, पावा ३, २,
८४, -न्त्यात् आश्री १२, ८,

१४, वीश्री ८, १६, १, ११-२०,
१, काश्री १४, ५, १८x४.
सुत्युत्वी- -ती आपश्री १९,
१२, ७, वीश्री १२, ३ १९,
दिश्री २३, २, १८
सुत्युत्त- -न वीश्री १३, २५ ५,
क्रम २, ९, १८, २४, १२, वा
१४, १६^१, श्रमा, -नम् आश्री
८, १, ४, शाश्री १०, ७, ११
सुत्युत्त- -सुत्त क्रमा ८, २९
सुत्युत्त- -न आपश्री १७, १९,
११, वीश्री १२ ६ १२८
सुत्युत्त- -न अत्राय ६, ३,
-गात् श्रय २, १०, १४८, शाश्री
१, ३१६
सोष्ट- सु-त्. क्रमा १, १०१,
-वा आश्री ५, १, १५^१, ८, ९, २,
वृदे ६, १८, -त्वात् वा ६,
१०, -सुत्तार शाश्री ९, १९,
२, निम् ८, १ ८
सुत्योत्त () वैताश्री ३२, १४, १७,
वा १३, ४^१
सुत्योत्त- मानम् शाश्री २, १२,
५, काश्री ४, १२, १०, आपश्री
६, १८, १, वीश्री
सुत्योत्त- -प्यत् काश्री १३, ६,
१०, -प्यत् वीश्री २२, ३ ५,
६, -प्यन्त. वीश्री १४, २६
२३
√सु.सु(वधा)^१ सुते हिप २, ४,
४०, वा ४, १७, वसुत् गो २
१^१, ७^१, वसुत्त गो २, ९^१,
१०^१

सुपते अप ७१ ११, १, सुपे
अप ७१, ७, १
सुपति अप ४१, ५ ५, सुपति
आपश्री ६, २३, १, वृदे ५, १९९,
सुपतान् आपश्री १८, १२, ६,
वीश्री १०, ५६ १, दिश्री,
सुपतान् वीश्री १२, ११ १,
३, सुपत् आपम १, १, २, वीश्री
१, १, २४, सुपत्त वीश्री १०,
५६ ४^१
सुपते आपश्री १७, १९, ३, वीश्री
११, ७ ६, १४, ५४ १०, वीश्री
१७, १६ १, १२, ६ ११८,
दिश्री १२, ६, ५^१, वृदे ३, १२३,
श्रमा ४, ६४, सस्य वा ७, ४,
७४, सुपतिपत् आश्री ८, १,
१८, वीश्री ११ ६:१९, वा ११,
४३, सुपति आश्री ४, १०, १,
शाश्री ५, १४, ८, आपश्री
सुपते अप २, ३, ३ वा १२,
१९
सुपत्त- -व अप ४८, ६१
सुपत्त- वा ३, २, १८४
सुपत्त- पाठमो २, १, २९७,
-सुपति आश्री ४, ६, ३, शाश्री
५ १, ७, ८, १८, १, वीश्री, वा
६ ७^१
सुप- सु वा १२, ९
सुपत्, वा- -पाठमो २, १, १२४, -व
सु ३, ५, १५, २, २९ ६, आश्री,
-स्य ७ २, ५, ५, ४, आश्री,
-स्यो क्रमा २, ८, १०२, -स्य
आश्री ८ ४, -वा वृदे ७, ४५,

a) पाठ १ सत्यम् इति शेष (इ सत्र शाश्री १, १५, १७) । b) स्या को १, ५२९ जे ३ ५५, ६
स्वात् इति पाठे । c) वैप ३ निर्दिष्टानां समावेश इ । d) पाठे वैप २, ३४ जे २, १० डि इ । e) वैप १ इ ।
f) √सु अत्र कदा पर. प्रत्येयधर्मो, √सु अत्र आत्म प्राणिधर्मविभोक्ते, दिवा आत्म प्राणिप्रत्यय, तुदा पर
प्रेरण । g) वा १२ १४ वा ३, २, ६१ ७, २, ४४, ३, ८८ पावा १, २, ६४ (इ पाठ) पराष्ट इ । h) पाठे वैप १,
७०९ इ इ । i) सुपते इति पाठ १ यति शेष (इ आपश्री) । j) = फर्म । k) = सतान- ।

-ताः ष्य ५२, ३, ५; ४, १५५;
 विष ६, ५१; घृदे ७, ११४; -ताम्
 सु ८, ५; अर २, ४, ३; विष
 ७८, १६; ४०; घृदे; -ताताम् सु
 ९, १; -ताम् ष्य २८२; ४; घृदे
 ३, १५६; ५, ५६; -ताम् ष्यामिण
 २, ५, ८; २६; २७-२९;
 ३०; वीण; घृदे ३, १८; -ते
 षंघ ३, १५, १२; -तेन शंघ
 २८५; -तेषु शंघ ३६७; -तैः
 आमिण ३, १०, ४; ३२; शंघ
 २३८; -ते घृदे ५, १००.

सुव-संस्कारकर्मन्- -संस् कर्म २,
 १, २२.

सुता(त-आ)दि- -दयः कर्म ३,
 २, ५.

सुता(त-अ)न्त- -न्तम् षण् १,
 ७; ८.

सुता(त-अ)म्वि(त>)ता-
 -तासु विष ९९, २१.

सुवन- पाठ २, ८०; -नाम् आमिण
 २, १, ३; १; -नस्व आषष्ठी
 १६, १३, १०; माधौ ६, १, ७,
 १७; वैधौ १८, १७; ३०; द्विधौ
 ११, ७, २१.

सु- ष्यः आषष्ठी १६, १३, १०;
 माधौ ६, १, ७, १७; वैधौ १८,
 १७; २९, घृदे ८, ५९.

सुत्- -ते या छ, १७; -तेऽन्ते
 पाग ८, ३, १०८.

सुत्-क-का^१- का आमिण २, ७,
 ८; २४; -कम् कण् ३, ४, ३;
 अष २३, १, २; शंघ ३५६; सुषप
 ८४; १; -का पावा छ, ३, ४५;
 -के वीण १, १७, ३; पाण्ड ३,

१०, ६; आमिण; -केषु वीण
 ३, १, ६; अष २३, १, १; -कौ जैण
 १, ८; १८.

सुत्कि- पावा छ, ३,
 ४५; -का वैधौ २०, ४; ८;
 वैण्ड ५, ९; २; -नाम् वीण २,
 ७, २३; शाण्ड २, १२, १०; वैण्ड
 ५, ९; १२; छ, ३; ११; -कापाः
 वीधौ २९, ११; ६; वीण २, ८, ७;
 -कावाम् पाण्ड १, १६, २२; वीण
 २, १, २१; माषष १, १६, १६;
 द्विष १, ५, १८.

सुत्कि(का-अ)मि-
 -मिण्ड पाण्ड १, १६, २३; माण्ड १,
 २६; १; ४; द्विण्ड २, ४; ४, ८;
 -मिण्ड शाण्ड १, २५, ४; अष ३१,
 १, २.

सुत्कि(का-अ)ष-
 -षम् शंघ ध्रुध.

सुत्कि(का-अ)
 रिटक्- -कौ वीण्ड २८, १५.

सुत्कि(का-अ)ग- -गः
 माण्ड १, २५; १६.

सुत्कि(का-अ)मैय-
 ष्य- -अम् माण्ड १, २५; २०.

सुत्कि(का-अ)क्य-
 -यम् पाण्ड २, १; १३.

सुत्कि(का-अ)
 किट्-माण्ड- -ण्डस्व शंघ
 १६५.

सुत्कि(का-अ)द्वय-
 -वयवोः शाण्ड छ, ७, ४७; -वयव-
 न्याम् वीण्ड ३, ९, ४१; ११, ३८;
 शाण्ड छ, ११, ६.

सुत्क-प्रैतक्- -कपोः वैण्ड ३,

१६; २७, ४८; वैण्ड २, ११, ९.

सुत्क-व्य- पाण्ड ३, १०, ६.

सुत्क(क-अ)मि- -मिणः
 आमिण्ड २, ७, ४; १०; -मिण्ड
 आषष्ठी ९, ३, २२; माधौ ९, ५,
 १८; द्विधौ १५, १, ७०; -मिण्ड
 आमिण्ड २, १, ३; १०; ५; १.

सुत्क(क-अ)दि- -दिता
 कर्म ३, १, १२.

सुत्क(क-अ) स्थान-उद्वेन-
 -नेषु वीण्ड १४१, ९.

सुत्क-व्य- -ना वाधौ ३, ३, ४,
 २; -नाम् आषष्ठी १८, २०, ४;
 २२, २५, ११; वीधौ १८, ५; २;
 ७; माधौ ५, २, १०, २०; द्विधौ
 १३, ६, ४, ५; २३, ४, ६; -नापाः
 माधौ ५, ३, १०, २.

सुत्- -पाठमो २, २, १३३; पाण्ड
 छ, १, ८०; -तः वीधौ १८, ४;

१; वाधौ ३, ३, २२; पाण्ड १८,
 ६४; वीण्ड १, ९, ८; वैण्ड ३, १३,
 ८; -तस्य काधौ १५, ३, ७;

वीधौ १२, ५; २५; -ताताम्
 विष १६, १३; -तय वीधौ

१२, १५; १२; वाधौ ३, ३, ३,
 २३; -ते वीधौ १८, २; १५.

सुत्-ग्रामणि, गी^२- -गिणे वीधौ
 १२, १५; १२; -गिणौ^३ वीधौ
 १२, १५; १७, २२; -गिणिः

आषष्ठी २०, ४, ३; द्विधौ १४,
 १, ३८; -गिणु वाधौ ३, १२;

५; -गिणाम् शाधौ १६, १, १६;
 वीधौ; -व्यः वीधौ १५, ३; ३;

५; २४५५; -व्याम् आषष्ठी २०,
 १, १५; आषष्ठी २७, १५, ८;

a) वैण्ड २, ३. b) माषष, विष. (द्वयवती), माष. (अमि, नवप्रवृत्त-मि). स्वार्थे कन् प्र. (इ. शक). c) इस. । उग. = अरिष्टवृत्त-दति दारिद्र्यः । d) समाहार इल. विभाषया पुनरुक्तम् उल्लं. (वक्. पा ७, १, ५६; ७४) । e) पुं. अवि युग्म आत्मनः उल्लं. (पा ७, १, ७३) ।

-यस्ये वीथी १२, १८ : ६.
 सुत-दुहितृ-; सुत-पुत्री- पावा
 ६, ३ ७०.
 सुत-भागधा(घ-आ)वोवय-अक्षृ-
 वैदेशक-कण्डाल- -लाः गौघ ४,
 १७.
 सुत-राजन्य- -न्याः वीथी २५,
 ३४ : ८.
 सुत-अध- -एव्य वापूथी ३, १४ :
 १; १७.
 सुत-सव^० -नः शाथी १४,
 २२, १; वीथी १८, ४ : १२; १३;
 -वेन वीथी १८, ४ : १; १०.
 सुत-स्वपति- -न्योः वाथी १५,
 ७, १२.
 सुत्वा- पा ४, १, ८०.
 सुत्वे आधां १, १२, ३; ४; ६; २,
 ११, १५^०; आधि १, ५, ५ : १७,
 २, १, १ : १२^०; काट.
 सुत्वे भाट १, २२ : ११^०; दिष्ट
 १, २५, १; २, २, ५^०; जैष्ट १, २२ :
 ३०.
 सुति- -तिम् धप ६९, ५, २.
 सुति-काल- -ले अत्र ६९, ५, २.
 सुत्^० -उम् अप्रा २, १, ७^०.
 सुत्^०(>)प्रो^० -यी अत्र ९, ७^०.
 सुत्^० -पाठ ३, ३५; -नवः वीथ
 ३, ११, ३^०; वीथ ४, ८, ८; अत्र;
 वा ११, १, ७^० ३^०; -नवे आधथी
 १०, १, ८; वीथी ३, ८ : २८;
 माथी; -नः आथी ६, ३, १५;

आधथी २, १०, ३ x x; वीथी;
 -नुम् आथी ८, १, १०^०; वा
 ८, २; -नो वीथी १३, ६ : ३;
 शाथी १, ४, ७; वाथी १, ४, ४;
 या ५, २५^०; -नोः अत्र ५३,
 १, १; वृदे ३, १५३.
 रसोप्यत् > न्ती- -न्वीम् पाट
 १, १६, १.
 सोप्यन्ती-जातकर्म-प्रोषितागत-
 कर्मत्^० - भंसु कप्र १, ५, ४.
 सोप्यन्ती-सवन- -नम् काट
 ३३, १.
 सोप्यन्ती-होम- -मः गोथ २,
 ७, १३; हाट २, २, २९.
 रसु- √सु(पधा.) द.
 रसु^० -सोः वा ३, ८^०.
 सु-अञ्जन^० -नः वा ५, ७.
 सु-अरण- -गः वा २, १४.
 सु-अ(व>)सा^० -सा वा ११, ३२.
 सु-अस्ति- -ति वा ३, २१.
 सु-इत^० -ते वा ४, १७.
 सु-ईरण^० -गः वा २, १४.
 सु-ऊर्जति^० -नवः शैधि ५४.
 सु-कक्ष^० -अः अत्र २, ८, १२, १३;
 साय १, १ x x x; अत्र.
 सुकटा- (>दिम्- पा.) पाग ४, २,
 ८०.
 सु-कप(ई>)र्षी^० -र्षां वीथी १०,
 ५ : १०; वीथी १८, १ : ६०.
 सुकम् निव ३, १२^०; पाग १, ४,
 ५७^०.

रसु-कर^० -पाग ५, १, १२४^०; -रम्
 वीथी १८, ४४ : १४.
 सौकर्यं- पा ५, १, १२४.
 रसुकर- (>श्रीकरीय- पा.) पाग
 ४, २, ८०.
 सु-कर्तृ^० -अं वीथ ३, ९, ५.
 सुकर्तृ-ता- -ताम् कप्र २, ४, ११.
 सु-कर्मन्^० -मार्जाः आथी २, १, १४^०;
 शाथी ३, १२, ८^०; वा ८, ७; १३.
 सु-कल्प^० -नम् अप्रा २, ५^०.
 सुकालिन्^० -लिनः शंघ ११६ : २५.
 सु-काशन^० -नम् वा १२, ८.
 सु-किञ्चुक^० -कम् शाथी ९, २८,
 ११, आपमं १, ६, ४; कौष्ट.
 सु-कीर्ति^० -तिः आथी ८, ३, २; अत्र
 २, १०, १३१; शुभ १, ६४०;
 अत्र २०, १२५; -तिम् आथी
 ८, ४, ९; शाथी १२, १३, १;
 वेताथी ३२, १३.
 सुकीर्ति-वृत्ताकपि- -पी वेताथी
 २७, २४, ३३, १२.
 सु-कुमार^० -पाग ५, १, १२३^०; -रम्^०
 नाधि १, ३, १; १^०; ३^०.
 सौकुमारक- पा ५, १, १२३.
 सुकुर्कुर^० -रः भाट २, ७ : ६।
 दिष्ट २, ७, २.
 सुकुर्कुर^० -रः आपमं २, १६, १;
 पाट १, १६, २४.
 सु-कूर्च^० -अं वीथ १, ३, १६.
 सु-कृत्^० -पा ३, २, ८१; -कृत् धप
 १, ४१, ८^०; -कृत्तः आधथी

a) सट्ट सु^० इति पाठः इ नति. बोधा । b) = एकाह-विशेष- । c) परस्परं पाठे । d) वैप १
 द. । e) = शरीरायुष्य विशेष- । f) = सुभुत- । g) पाठे. वैप १ सुभुः शी ६, १, २ टि. द. । h) द्रव. ।
 i) = प्रकृत-भाग- । j) पव. । k) उच. उप. √अस् (लोपणे) + कल् प्र. (वा ३, ३, १२६) । l) प्रति-
 योषितया रसुदुहितृ- (द्र. वैप १) । m) उच. उप. कर्त्तरि क्त् । सस्य. ४ ६२० घ ईरमः इति नेटम् । n) व्यप. ।
 o) अतिधये इति पाठम्. । p) द्र. पा ३, ३, १२६ । q) छ. पाठम्. । r) प्राठ. । s) = कित्-विशेष- ।
 ट्ट. १ । t) उप. कर्त्तरि क्त् । u) = कृषि-विशेष-, तट्ट-वृत्- । v) = गान्धुष्यशान्त-विशेष- । w) = पाठ-
 म्-विशेष- । x) परस्परं पाठे. ।

उ, १६, ७; वीथी ८, २० :
 १०^०××; आमिण; -^०हृत्वा
 वीथी १६, २६ : १५; या ११,
 ३३; -^०हृत्वा आथी ३, १३,
 १४; वीथी १०, ३१ : २; आथमं;
 -^०हृत्वात् गोथी ७, १४, ३६;
 काथी २, २, ८; व्यापथी; -^०हृत्वे
 आथी २, १०, ९; वीथी १३, ७ :
 ३; वेताथी २४, १^०; आथमं;
 -^०हृत्वाः या ३, ६^०; -^०हृत्विः
 आथी २०, ६, १३^०; -^०हृत्वी
 या १४, २९.

सु-कृत^० -^०त्वा आथी ३, ३, ४^०;
 आथथी; चांथ ४, १८, १^०;
 वाथ १६, ७^०; कौत् १७,
 ६^०; या ६, ३३^०; श्राप २,
 ४५; -^०हृत्वात् शोथी ४, ८, ३;
 काथी ३, ८, २; व्यापथी; कौत्
 ६८, २६^०; -^०त्वा वेताथी २४,
 १^०; -^०त्वा गोथ ३, ७, ९^०;
 -^०हृत्वात् व्यापथी १, ५, ५^०; ६,
 २०, २; वीथी १, १२ : २१^०; ३,
 २७ : ३; आथी १, ५, १^०; माथी
 १, २, ५, १२^०; वाथी १, ३, २,
 २१^०; द्विथी १, २, ४^०; आथमं
 १, २, ७^०; काथ २५, ४^०; वाथ;
 -^०हृत्वे आथथी ३, ९, १^०; ४,
 वीथी २४, २९ : १५^०; आथी

३, ८, ११^०; वाथी; द्विथी २, ५,
 ११^०; -^०त्वेप माथी १, ३, ५,
 ५^०; -^०त्वेः वाप ११, २, ५; ७०,
 १२, ५,
 सुहृत्-कर्म^० -^०त्वेपः या ११, २४.
 सुहृत्-कला -^०त्वेपः वाथुथी ३,
 ११ : २.
 सुहृत्-दुग्ध-पछांत् -^०त्वात्-
 -^०त्वात् विथ ३, २८.
 सुहृत्-^०त्वे-^०त्वात् -^०त्वात् वीथ २, १,
 ५४.
 सुहृत्-^०त्वे-^०त्वात्-^०त्वात्-^०त्वात् -^०त्वात्
 भाथि ४५.
 सुहृत्-^०त्वे-^०त्वात्-^०त्वात् -^०त्वात्
 १, २०, १२; द्विथ १, ६, २६.
 सुहृत्-^०त्वे-^०त्वात् आमिण ३, ४, ४ :
 १२^०; वाथ १२, ४५; -^०त्वेपः
 गोथि १, ४ : २.
 सु-हृत्वा -^०त्वेपः विथ ४३, ३३.
 सु-हृत्वा^० (> सौहृत्वात्-^०त्वात्) वाप
 ४, १, १९.
 सु-हृत्वा^० -^०त्वेपः सुथ ३, ११ : १०.
 सु-हृत्वा -^०त्वेपः वाथ ११, ४२.
 सु-हृत्वा^० -^०त्वेपः वीथी १, २० : २१^०;
 ३, १ : १८^०; द्विथी ३, ६, २७^०;
 आथमं १, ५, १६^०.
 सु-हृत्वा^० -^०त्वात् वाप ३, ४, १४^०; ४.
 सु-हृत्वा^० -^०त्वात् आथथी ८, १४.

२४; वीथी २८, ३ : १०; वीथी
 २, ७ : ३.
 सु-कृत^० -> सु-कृत^० > सु-क-
 द्वा^० -^०त्वेपः श्राप ९, १४^०.
 सु-कृत^० -^०त्वात् २, ११८^०; -^०त्वात्
 या ८, ५^०; -^०त्वात् आथी ४, ६,
 ३; आथी ५, ९, ७; वीथी ६,
 १४ : १६^०; वाथुथी; -^०त्वात्
 आथी २, १६, ७; द्विथी ११, ७,
 ५१; -^०त्वात् आथी ७, ११, २२^०.
 सु-कृत^० -^०त्वात् माथी १, ६, ३,
 १; आथमं ५, ३; श्राप ४, १७;
 -^०त्वात् वेथ १, १८ : १; -^०त्वात्
 वीथी १८, ५ : ११; -^०त्वात् आथी
 ८, १, १८^०; -^०त्वात् वीथी ९, ४ :
 १२^०.
 सु-कृत^० -^०त्वात् श्राप ५७, ४, ३.
 सु-कृत^० -^०त्वात् श्राप ४८, ७५^०.
 सु-कृत^० -^०त्वात् श्राप १, १२^०.
 सु-कृत^० -^०त्वात् काथी २, ६, २३;
 श्राप १, ८५.
 सु-कृत^० वाप. सुथ. उम. तत्किंवा-
 गात्.
 सु-कृत, स्वा (व्र.)^० -^०त्वात् ३, १,
 १३^०; १८ : २७; ४, ४, १२^०;
 ५, २, ३६; १३१; ६, २, १००;
 पाषाण ५, १, १२४; पाषाण १७८;
 -^०त्वात् श्राप १, ११, ३^०; या

a) पामे. वेप १ सुकृतः तै १, ४, ४५, ३ द्वि. द्र १ b) पामे. वेप २, ३६. साहुकर्मिः माथ १३, ४, ३, ३
 द्वि. द्र. १ c) वेप १ निदिशयोः स्याविसः द्र. १ d) पामे. वेप १ सुकृतम् तै ५, ७, २, ४ द्वि. द्र. १ e) सपा. श्र
 ५, ३, २ सुधिवम् इति पामे. १ f) पामे. वेप २, ३६. साहुकल्या माथ ४, ६, १५ द्वि. द्र. १ g) पामे. वेप १
 सुकृतम् मा १८, ५२ द्वि. द्र. १ h) पामे. वेप २, ३६. स्वधिता तैषा ३, ७, १३, १ द्वि. द्र. १ i) विप. (स्वधिव-
 सुकृतम् मा १८, ५२ द्वि. द्र. १) j) पामे. वेप १ सुकृतम् तै १, १, १, १ द्वि. द्र. १ k) पामे. वेप १ सुकृतम् तै १, ४, ३, ८ द्वि. द्र. १
 l) वस. १ m) सपा. वीथि ३, ४, १४ सुग^० इति पामे. १ n) वस. १ वस. १ पृ २४१४ इ इति द्र. १
 o) वेप १ द्र. १ p) पामे. वेप १ सुकृतः तै १, १, १, १ द्वि. द्र. १ q) = आदित्याऽवतम- १ r) पामे. वेप १
 सुकृतः श्र १०, ८५, २४ द्वि. द्र. १ s) = आदित्याऽवतम- १ प्राग. (तु. Old. B. प्राग.; वेत. [श्र] प्राग. केत- इति)।
 t) पामे. वेप १ सुकृतम् श्र १, ७९, १ द्वि. द्र. १ u) पामे. वेप १ सुकृतम् शौ ६, १, १ द्वि. द्र. १ v) वस. १
 w) = १७८८- १ x) परतरं पामे. १ y) विषेयः द्वि. द्र. १ z) तु. पाषाण. १ d) पृ १४०२ अ द्र. १

१०, २२, -खम् सु ३१, २,
 कौष्ट ३, १२, १७, २०, भाष्ट,
 वैश ५, ५१५, अण ४८,
 ७५^३, निघ १, १२^३, या ३
 १३^३, -खस्य अण ४८, ६४,
 -खा काष्ट ४१, ११^३, या ९
 ३२, नाशि १, २, १^०, -खा
 आप्तो २०, १, ३, हिधी १४,
 १, ३, आशिष्ट १, २, २, हिष्ट
 २ १० ९, या १२, ४४, -खाष्ट
 धा १, ८४, ५, -खानाम् कष
 २ १०, १२, -खानि कप्र १ १०,
 १२, -खाय अण ५४, २, २, -खे
 बौधो १७, ४३ १४^३, आप्तम
 २, २१, ११^३, आशिष्ट १, ४,
 १ १७^३, हिष्ट १, १२, २^३,
 आप्त २, २, ३, बौध, -खेन अण
 ९, ४, ३, ६८, १, २७, विघ
 १३ ५, -खै अण १, ३९,
 १, १४, १, १५, अतो ९, १.
 सौखिक- पा ४, ४, १२
 सौख्य- पा ५, ४, २२, पावा
 ५, १, १२४, -खम् अण ५१,
 ३, २, नाशि २, ८, ५
 सुख पु- सु या ४, २१
 सुख-वर- रम् अण ६८, २, ४०,
 या १२९, -ता अण ४१, ३,
 १०
 सुख-जा(त>)ता- पावा २, २,
 ३६
 सुख तपस्-(>सौख्यतपसि-
 पावा) पावाण ४, ४, १
 सुख दश- रम् अण २५ २, ३,
 -नदाम् दाधो १०, ४, १३, छाधो
 ३, १२, १३

सुख दिवस- (>सौख्यदिवसिक-
 पावा) पावाण ४, ४, १
 सुख दुख- खे वैश ५, १ २८,
 आप्त २, २१, १३, हिष्ट २, ५,
 १२२.
 सुख देवताक- कम् अण ७, ६९
 सुख-नामद्- म या २, १४, ८, १,
 १०, १७, -मानि निघ ३, ६,
 या ३, १३
 सुख निबोधन- ना अण ६८,
 १, २७
 सुख निद्रा- (>सौख्यनिद्रिक-
 पावा) पावाण ४, ४, १
 सुख पयस्- -यसम् या ६, ३
 सुख प्रद- द अण ७०^३, २, २
 सुख प्रिय- ययो पा ६ २, १५
 सुख भागिद्- कित अण ६८, १,
 २३
 सुख मू- सुब या ९ २७, -मू
 या ५, १, -मूवि या १४, २५
 सुख-नात्रि- (>सौख्यत्रिक-
 पावा) पावाण ४, ४, १
 सुख-र(त>)वी- जी, -रय या
 ६, २३
 सुख शत्र- सै विघ ९६, ४८
 सुख दाय- (>सौख्यदायिक-
 पावा) पावाण ४, ४, १
 सुख शायन-(>सौख्यशायनिक-
 पा, पावा) पाण ७, ३, २०, पावाण
 ४, ४, १
 सुख-शायन- (>सौख्यशायनिक-
 पा, पावा) पाण ४, ४, १२६,
 पावाण ४, ४, १
 सुख-स(मा>)ज- जम् विघ
 ९६ ४१

सुखा ✓ हू पा ५ ४, ६३
 सुखा(स-आ) वय-कर- रम् वा
 १२, ९
 ✓सुखाय पा ३, १, १८
 सुखा(ख ऋ)ई- तौ आशिष्ट १, ५,
 ४ ४९
 सुखा(ख-अ)र्थ-> र्थिन्- थी
 याशि २, १०३
 सुखा(ख-अ)वगाह हा- हा आशिष्ट
 १, २, २-२, भाष्ट ३, ६ १३,
 हिष्ट २, १८, ९
 सुखा(ख-आ)बह- हम् अण ७०^३,
 १, १, -हानि अण ७०^३, ११,
 २१
 सुखा(ख प्रा)सीव, ना- नम् अण
 २५ १, १, २२-३०, १, १, प्राज्यो
 १, १, -ना विघ १, ६५^३, -ना
 अण ६८, ५, २५
 ✓सुखि > सुखन- ने अण ४८,
 ३८
 सुखिवृ- -ता या १४, २८
 सुखित- पा ५, २, ३६
 सुखिन्- पा ५, २, १३१, -सिन
 याशि २, १०३, -थी विघ २,
 १८
 ✓सुख्य पा ३, १, २७
 २सुख- (>सौख- वा) पाण ४, १,
 ११२
 ३सुख- (>सौख्य- वा) पाण ४,
 २, ८०
 सुख ग- पावा ३, २ ४६ -ना आधो
 २ ५, ६, दाधो ११, १, ५
 छाधो ४, १, ५ काष्ट, -नाम्
 आप्तो ९, ८, ६ बौधो ५
 १६ १४, १३, ४२ ११, वैधो

०) वा किवि । ०) = १३६६ । ८) = सुतेना विहाय । ८) स्या पाण्ड ३, १४, १२, १३
 रत्न इति पाथे । ९) हू पावाण । १) यत् । १) २४-२३६ । १) अण । १) सिपल- इत्यन्ते
 (१ पावाण) । १) वैप १६ ।

द्राघी १३, २, १३^०; लाघी ५, ३, ५^०; आषमं १, ६, ११^०; पाए^० १, ५, ११; ३, १, ३; वीए १, ५, ५^०; -गा^० काघी २, २, १०; कौव १३७, ११; छस १, ५००; या १२, ४२^०; -गाव कौव ४, ३; वृदे ७, ६५६; गा ६, २^०; -नेमि; द्राघी ७, १६, ७^०; वीथी १५, २: ७^०; आषमं १, ६, १०^०; नाए २५, ५^०.

सु-गत- ने या ४, १७.
 सु गति- -तिम् वीथि ३, ४, १४; १५.
 सुगतित्- -वित्तः वीथि ३, ४, १४^०.
 सु-नान्त्य- -न्वः द्राघी ११, १, ५; लाघी ४, १, ५.

सु-गन्ध- -न्वाः आषि २, १, ३: १३
 सु-गन्ध^१- > सुगन्धा- -न्वाभिः
 छप २४, ४, ३.
 सुगन्ध-लित्त- -से विप ९९, १९.
 सुगन्ध-स्तान-दील- -लः गोष ९, २.

सुगन्धा^१- -न्वाभाम् विष ८५, २०.
 सु-गन्धि^२- पा ५, ४, १३५; -न्धिः
 कौव ७३, १०^०; अप १, ४९, २; ३८, १, ३४४; -न्धिषम्
 आषमो ८, १८, १^०; वीथी^१
 ५, १६: २०; २३; भाषी ८, २१, १०^०; वाघी १, ५, ४, ७२^०;
 द्विथी ५, ५, १८^०; द्राघी १३, १, ३^०;
 लाघी ५, ३, ७^०; वैताघी

९, १९^०; वाए २५, ३७^०; अप
 ७२, ९, ६६; या १४, १५^०;
 -न्धीनि अप ६६, २, ३; विप
 ७२, ६.
 सौगन्धिक^३- -केन आषमो
 २३ ७, ९; द्विथी १८, ३, ३.
 सुगन्धिक- -कम् विप ६६, ८;
 -कान् व्त ६८, १, १५.
 सुगन्धि-नेजन^४- कि ६०; -न्म
 वीथी ४, १: २^०; ३: १४; वैष
 २, ४, २^०; वृदे ७, ७८.
 सुगन्धि-वेदन-सुधो^५ (श-ल) लप-
 द्यमाक-नीवार-सस्प-पूर्वा-वृण-
 -गानि वैथी ११, १०: ८.

सु-नामन^१- -नाव् या ६, २.
 सु-नाव^२- -वः अपाम ६, १^०.
 सु-नाव्य^३- -व्यम् आषो १०, ८, ४;
 हाथी १६, ३, १९.
 सु-नाहंपत्य^४- -व्यः आषमो ५, १२,
 ३; ६, १, ३; वीथी.
 सु-गु^५- -गुः वृदे ३, १५१; १५३;
 या ५, १९^०.

सु-गुप्त- -सेग छप २, १, २.
 सुगुप्त-भा(एव) ण्डा^६- -गडासु
 विप २९, ११.
 सुगुप्तभाण्ड-ता- -ता विप २५,
 ६.
 सु-गृह^७- -हः आषमं २, ६, १^०
 सु-गृहपति^८- -वयः वीथी १६, ५;
 ९; -ति: हाथी ४, १२, १०^०;

आषमो ६, २६, १^०; वीथी ३,
 ९: ११^०xx; वाघी ३, २, २,
 २८^०; कौव ७०, ९^०.

सु-भोपा-तम- -मः वैता ३, ५^०.
 सु-भम- > सुभय^९- -न्मम् विप ३,
 ६^०.

सु-भ्रीष्य- -न्मः कौव ४, ४, १०;
 वाए ४, १८, ४; पाए ३, २, १२.
 सु-घोर- -न्म विष ३३, १.

सु-चक्र^{१०}- -कम् आषमं १, ६, ४;
 वाए २६, ४; गाए; -के या
 १०, ३.

सु-चक्रसू^{११}- -क्षाः माघी २, १, ७,
 १^०; ४, १, ३४^०; ५, ४, २४^०;
 वाए ३, ६, ७; पाए; या ७, ३.

सु-चक्षुस्^{१२}- -क्षुः वाए २९, ९.
 सु-चक्षुर- -वा ५, ४, ७७.
 सु-चरित^{१३}- -वा माघी १, ३, १,
 १८; वाघी १, ३, ४, १३; -ते
 आषमो २, १४, १०; वीथी.

सुचरितवृ^{१४}- -विक, -विनम् वीथी
 १: १३; -वी वाए १०, २; गाए
 १, ७, १; वाए ८, १२.

सु-चर्य^{१५} वाघी ३, ३, ५, ४९.
 सु-चिर- -न्म छप ६८, १, ३.
 सु-चिहित- -तो विष १०, ६.

सु-चोर्क^{१६}- -का छम ३, १८४; ४, ४९.
 सु-चेतस्^{१७}- -वत्तः वीथि ३, १, ३;
 गाए २, ८, ५^०.

सु-चेतु^{१८}- -नुना आषो २, १०, ३^०;

a) पाणे. वैप १ सुसुम् मा ३, ५९ टि. द.। b) पाणे. वैप १, ७८९ टि. द.। c) पाणे. वैप १ सुगम् काठ २, १५ टि. द.। d) पाणे. वैप १ सुगा मा ८, १८ टि. द.। e) पाणे. वैप १ शिवेभिः मै १, २, १५ टि. द.। f) पाणे. वैप १ सुगौन वी १४, २, ११ टि. द.। g) पाणे. वृ २९६१ गड द.। h) सुह^१ इति ड.। i) पय.। j) = नदी-विवेच-। k) वैप १ निदिशानां समावेद्यः द.। l) पाणे. वैप १ सुगन्धिम टि. द.। m) = सुगन्धि-नेजन- (वृ. सप. आषो १६, ६, ३)। इदमर्थं ठक्ष.। n) वैप १ द.। o) अस्यापि वृ १८८ ज समावेद्यः द.। p) श्रितम् इति पाठः श्रित. शोषः। q) पाणे. वैप १ तै ३, २, ५, १ टि. द.। r) पाणे. वैप २, १३. वृषुषाः वैता ३, ७, १३, २ टि. द.। s) पय. < ✓ चर 'प्रज्जल्ले'। t) = श्रित-विवेच-। u) पाणे. वैप १ सुचेतुसः मै २, ९, १ टि. द.। v) पाणे. वैप १ सुचेतना ग १, ७९, ९ टि. द.।

शाश्वी; माश्वी ५, २, २, १८^{४०};
 वीश्व २, २, ४; माश्व २, १५, ६.
सु-जनिमन्-मा आश्वी २४,
 १३, ३; आश्वि ३, ७, १: १;
 वीश्व १, १७: ८.
सु-जन्तु-जन्तु: वीश्वी ७, ५: ५.
सु-जामन्-वा ५, ४, १२५.
सु-जवस्-वाश्व ४, २२३.
सु-जात^१-जा: काश्वी १६, ३, ४;
 आश्वी १६, ३, ७; वीश्वी; वा
 ११, ३६६, -जम् वीश्वी ५,
 १५; आश्व २, ६, १५; आश्वि
 १, १, ४: २०; वीश्व: -जा:
 आश्वी १२, ७, १०; १०, २;
 वीश्वी ७, ५: २२; १४, ४: ३८;
 माश्वी; -जम् माश्वी ३, ११, १;
 -जै: आश्वी २, ११, ८.
सुजात-तर-रा: या ११, ३६.
सुजात वज्र^२-वज्रम् आश्व ३,
 ४, ४; वीश्व २, ५, ३.
सु-जामि^३-मय: कौश्व ७२, १२.
सुजामि^४-> सौजामि-मिम्^५
 आश्व ३, ४, ४; वीश्व २, ५, ३.
सु-जिह्व^६-जिह्व या ८, १६; -जि:
 काश्वी ८, १८, १.
सु-जान^७-जम् दाश्वी ८, २, १७; काश्वी
 ४, ६, १४; ७, १, १; निव् ५, ५:
 २१; ६, ४: ११; -जम् निव्
 ५, ८: २२; २५.

सु-ज्यैष्ठ्य^८-ज्यैष्ठ्य: कौश्व ७८, ८.
सु-ज्योतिस्^९-ज्योति: काश्वी १५,
 १०, १०; वीश्वी ९, ८: २३; ११:
 २२x; माश्वी ११, १०, ६.
सु-रद पाषा. सुरा. पर. अनादरे.
सु-र-रु (अभिव्ये) द.
रसुत-रु (वधा.) द.
सु-रक्ष^{१०}-रक्ष: अश्व २०, ६०; ११०.
सु-रहम-(> सौ-रहमि- पा.) वाग
 ४, २, ८०.
सु-रनु^{११}-रनु: माश्वी १, ८, ४, २५;
 वाश्वी १, ६, ६, १.
सु-रस-रसम् वाश्वी ४, ५६: २.
 सु-रस-जाम्बूनद-चार-व (र्व >)
 र्वा-ज्याम् विध ९९, १.
सु-र(ए)णा^{१२}-रणा: माश्वी १०,
 १८, १०^{१३}; हिश्वी ७, २, ८३.
सु-र(र)रा^{१४}-रा: आश्व १, ६,
 १३; काश्व २६, १२; वीश्व ४, ३, ६.
सु-रर्मन्^{१५}-रर्मन्माश्वी ६, ५: ६.
सु-रधवस्^{१६}-रधवस् वीश्व ३, १, ५; हिश्व
 २, ११, ६.
सु-रतीर्थ^{१७}-रतीर्थमाश्व १५, ५; पाश्वि
 २६; नाश्व २, ८, ११.
सु-रती(र्व)र्था^{१८}-रतीर्थमाश्व १, २,
 सुती(र्व)र्था^{१९}-रतीर्थमाश्व २,
 १३: १५; हिश्व २, १२, १०.
सु-रुक्^{२०}-रुक्: निव ४, १; वा ४,
 १८^{२१}; -रुक्भि: वा ४, १८^{२२}.

सु-रुक्^{२३}-रुक्: वा ४, १८.
सु-रुजस्-रुजस् वाश्व ४, २२७; -रुजस्
 माश्व १, २१, ७^{२४}.
सु-रुत्या-रुत्या-रुत्या (अभिव्ये) द.
सु-रामणि^{२५}-रामणि: माश्वी १, १, ५, ५^{२६}.
सु-श्रामन्^{२७}-श्रामान्माश्वी १३, १४: ७;
 माश्वी; -श्रामान्माश्वी ३, ८,
 १; ९, ३; ४, ३, २; काश्वी ५,
 ५, २x; १४, १३, ९६; काश्वी;
 -श्रामान्माश्वी १४, १३, २, ९; १५,
 १५, ४; काश्वी.
सौश्रामन्^{२८}-श्रामान्माश्वी १४, १२,
 १; -श्रामान्माश्वी १४, १२, २;
 -श्रामान्माश्वी १४, ८, १०.
सौश्रामिणी^{२९}-श्रामान्माश्वी ११,
 २: २; -श्रामान्माश्वी २४, ४: ७;
 माश्वी ३, २, ७, १; -श्रामान्माश्वी १४,
 १३, ९; २५, १५, १; काश्वी; -श्रामान्माश्वी
 आश्वी १४, २४, १; १८, ७, १५;
 २२, २१; १९, १५, १५; २०, १५,
 १; काश्वी; आश्वि ३, ८, ३;
 ४५^{३०}; -श्रामान्माश्वी १४, १३, ३;
 १०; आश्वी १९, १, १; वीश्वी;
 वीश्व १, १६: २९; -श्रामान्माश्वी
 ३, १, १; काश्वी ४, ५, १३; ८, ६;
 ३५x; वीश्वी; -श्रामान्माश्वी
 १३, ४, १४; काश्वी ५, ४, २०.
सौश्रामण^{३१}-श्रामान्माश्वी
 २, १५३.

०) पाश्वि. १ २६६३ षड् द. १) सुक् इति पाठः? मनि. शोषः (वृ. आश्वी.) । ८) वैप १ द. १
 d) वैप १ निर्दिशन्तं समावेशः द. १) पाश्वि. वैप २, ३६. सन्नातम् सैमा २, ४, ६, १२ टि. द. १) f) वृष. १
 ६) वग. १) h) सदा. सौश्रामिन् <> सौश्रामिन् इति पाश्वि. १) i) = साम-विशेष- १) j) पाश्वि. वैप १ सुश्रामिनिः
 मा ३७, २१ टि. द. १) k) = साम-विशेष- १) लघु. ऋज २, ८, १२ सुक् इति । १) पाश्वि. वैप १ सुश्रामिनिः वै ३, १, ५,
 ४ टि. द. १) m) सुक् इति पाठः? मनि. शोषः । १) लघु. लघु. ऋज प्र. १) ०) विप. (१७७-) । वस. १
 p) विप. (नदी-) । रकोर्षे यत् प्र. १) q) लघु. = सुक् । १) पाश्वि. वैप १ सुश्रामिनिः सौ ८, २, १७ टि. द. १
 १) सुश्रामन्->मणि इति शोषः संभाव्यते । १) = एकाह-विशेष- । इदमर्थे ऋज प्र. १) u) छान्दसो हराः ।
 ०) श्रामान् इति पाठः? मनि. शोषः (वृ. लघु. वीश्व १, १६: २९) । १) w) = आश्वीष्ण-अश्व-मा २०, ३६-४६;
 ५५-१६; २१, १२-२३) ।

सौप्रामणिक, का- -कः शुभ
 ३, १०१; -वापै वीथी २३, १६७
 सौप्रामणिकी^७ -की
 वीथी १७, ३२८; २६, २२; १६;
 भाग्य ५, १३; द्विगु २, २५;
 -कीम् वीथु ३: ३०.
 सौप्रामणी-दशर- -नाम्
 काथी ८, ८, ३३.
 सौप्रामणी-याग- -नाम् शंभ
 ४२.
 सौप्रामणी-मुत्- -ले काष्ठ
 ७, ३१.

सु-न्यवृ- -न्यवृ वृदे ६, १०५;
 -न्यवृ वृदे ६, १०५.
 सु-न्यवृ- -सुवा $\sqrt{स}$ (भगिपये) द.
 सु-दंसस्- -सतः वीथ ३, ११, ३.
 सु-दक्ष- -क्षः माथी १, ८, ८, २५६;
 वाथी १, ६, ६, १६; द्विगु २१, १,
 १; -साः वीथी ३, ७: ११; वीथ
 ३, ६, १५; विप ४८, ८.
 सु-दक्ष- (> सौदक्ष- शैव- पा.)
 पाथ ४, १, १२३; २, ७५.
 सु-दण्डय-दण्डन-हृत्य- -न्यः
 वैष ३, १३, ३.
 सु-दत्त- (> सौदत्त- पा.) पाथ
 ४, १, १२३.
 सु-दत्त- -त्रः शीथी ४, ११, ६६;
 वीथी २, ९: १०; वीथ २, १,
 १०; निप ४, ३०; या ६, १४६६.

सु-दन्त- (> सौदन्त-)
 सु-दन्त- -भम् या ३, २०.
 सु-दर्शन(वप्रा.)- -नाः विप ३, ८६६;
 -नम् पाथ ३, ४, ८१३; -नेन^७
 कामिप २, ५, ६: ११; २५.
 सु-दायु- -नयः काथी २, १३, ७;
 कापथी ६, ३०, ३०; वीथी; माथ
 २, १, १००; -नयः कापथी
 १९, २०, १००; वीथी ५, ८: ७;
 १३, २१: ५०x; द्विगु २२,
 १, २७७; या ६, २३६; -नम्
 काथी २, १४, ११; ३, ८, १.
 सु-दामन्- (> सौदामन्- पा) पाथ
 ४, १, १२३.
 सु-दारण, णा- -नम् अण ७०, ७,
 ११; विप ४३, ३६; -णाः अण
 ५२, १५, ५; ७३, १०, ४; विप
 ४३, ४१; ४४; -ले अण ४४०.
 सु-दास- -दाः गीथ १, १, ११; अण
 २, १०, १३३; साथ २, ११५१;
 अण २०, १५९; या २, २४६;
 -दासः वाथी ७, १, २१; शीथी
 १६, ११, १४; अण २, ५, १८;
 वृदे ४, ११३; ५, १६२१; या
 २, २४; -दास वृदे ४, १०६.
 सौदास- -साद् वीथी १७, ५४;
 ४; -सैः अण २, ७, ३२; वृदे
 ६, २८; अण २०, ७५.
 सु-दास- -सैम् वृदे ६, ३४.

सु-दि^१ पाथ १, १, ३५.
 सु-दिति- -तिः वैताथी २२, १०१.
 सु-दिन, ना- -नम् अण ४८, १४;
 निप ३, ६; -नाः काथी ८, १०,
 ११; -नामि वीथी २, ९: ४१.
 सु-दिन- -नम् पाथ १, १८, ५;
 -नम् काथी ३, १, ९; वापृथी
 ३, ५२: १.
 सु-दिन- -नम् पाथ ३, १, १७.
 सु-दिना(न-क)ह- -पाता २, ४, १८.
 सु-दिव- -पा ५, ४, १२०; -नम् अण
 १, २६, ३१.
 सु-दिह- -ही वैताथी १०, १०१.
 सु-दीक्षा- -क्षा विप ९९, ५.
 सु-दीक्ष- -नयः वीथ ३, ११, ४;
 -तिम् काथी ९, १, ७; शीथी ५,
 १९, ११; माथी ५, २, ८, ३४.
 सु-दीक्षि- -तिः साथ ६, ६, ४५; २,
 १०४.
 सु-दीक्षि- -नम् अण २,
 ८, ७९; अण २०, १०३.
 सु-दी(प>)वी- -वाभिः अण ५२,
 ५, ४.
 सु-दु- -नाः विप ४३, ४५.
 सु-दुवा- -वा काथी ४, १३, २;
 शीथी ८, १९, १; कीम् ६२, २१;
 -वाम् काथी ४, ७, ४; कापथी
 ४, ७, २; ११, ४, १४; माथी;
 या ११, ४३६.

७) विप. (सुप्र-), नाप. (बाध्याम-विशेष-). तस्येदानीम् एक प्र. उत्तं. (पा ४, १२४)। ४) विप.
 (वेदि-). ८) उप. = १७७-। ९) वत.। ६) वेप १ द.। ७) पाथि. वेप १ सुदक्षः तै ३, १, ४ टि. द.।
 ८) व्यप.। ९) प्रात. > वत. > वत.। १०) उप. पाथ.। सु-दन्त- दत्ति माण्डा, प्रमृ.। ११) पाथि. वेप १
 सुदन्तः अण ७, ३४, २२ टि. द.। १२) वत. उप. खल् प्र.। १३) विप. (सुप्र-).। १४) = परंत-विशेष- (छ. old.।
 नगेश्वरम् इति संस्कृतं टि.। १५) = मन्त्र-शैव-। १६) पाथि. वेप १ सचायुषः मा २, ४७ टि. द.। १७) पाथि.
 वेप १ सुदानवः तै २, ३, १, ३ टि. द.। १८) सुप्र-दा इति पाठः। यति. शोधः (तु. सात.)। १९) = शुक्र-सह-
 (तु. पापम.)। २०) पाथि. वेप १ सुदितिः टि. द.। २१) विप. (काथी.), नाप. (सुप्र- [अप. निप.], उप-दिवस-).।
 २२) सुदिवः पाठः, यति. च समविशामकः शोधः (तु. सग. वै ५, २८, २)। २३) द्विगुसुदन्तो इति पाठः। यति.
 शोधः (तु. अण.)। २४) विप. (विला-).

सु-दुर्जय^१- नम् वृदे ८, २३.
 सु-दुष्टर^२- र. पाप ३, १३, ४०.
 सु-दुष्पार^३- वर विष १, ५१.
 सु-दूर- नम् याधि २, १०२; नावि २, ८, २४.
 सु-दृढ, दा- नम् कर्म २, ५, ११; -वे कर्म २, ५, १६.
 सु-दृश^४- न्नाम् आधौ ९, ९, ७; बौधौ १३, ३५: ५.
 सु-दृशीक^५- पा ६, २, ११८; -कः बौधौ २७, १४: १००.
 सु-द्वेष^६- न्यः कर्म २, १०, ९५; वृदे १, ५३; वा ५, २००; ७, ३: १४, २००; ऋषा १६, ३१; -नम् शांशौ ५, २०, १.
 सु-द्वेषला^७- न्ना बौधौ १८, १३: ७; -ला ३ बौधौ १८, १३: ११.
 सु-दोहना^८- न्नाम् वा ११, ४३.
 सु-दुष्क^९- न्नाः आपधौ १०, १०, ४; भाधौ १०, ६, १८; द्विधौ.
 सु-दोहमन्^{१०}- न्नामन् आधौ ४, १३, ७; शांशौ १०, ५, २४; १४, ५७, १०.
 सु-द्रविण- नम् आपधौ २१, १३, ३; द्विधौ १६, ४, ३५.
 सु-द्रविणम्^{११}- न्नाः वा ११, २४; -गाः आधौ १, ८, ७; शांशौ १, १३, ३.
 सु-धन्यन्^{१२}- न्वनः वृदे ३, ८३; वा ११, १६; -न्या वृदे ८, १२७; -न्यामः पाप २, १७, १३.

सौधम्यन्^{१३}- न्नाः काशौ १०, २, २२१; ऋषीशौ ८, ११: २; १४, ५: १६; माधौ; मीम् ६, १, ५०^b; -नान् कर्म ६, ४७.
 सौधन्वना^{१४}- न्नाः अथ ६, ४७.
 सु-धर्मन्^{१५}- पाठ ४, १५२; -र्मां शापधौ १५, ११, २; बौधौ ९, ११: १; भाधौ ११, ११, १.
 सुधा^{१६}->सौध- पाप २, ४, ३१.
 सुधा-धारा- न्नाः वाप ११, २१.
 सुधा(धा अ)म्बु-स्रग्(भा >)म- न्नाः अथ ६८, १, ३३.
 सुधा-शिक- न्नाम् विष ९१, ११.
 सुधातृ^{१७}- न्तुः आधौ ८, १, १८^{१०}.
 सुधातृ-दक्षि(णा >)ण^{१८}- न्नाः कौम् ६७, ३; -नम् बौधौ ८, ६: २; नाधौ २, ४, ५, १४; कौम् ६७, २.
 सु-धातृ- न्ना काशौ २३, ३, १; आपधौ २२, १९, १; द्विधौ १७, ७, १०.
 सुधातृ^{१९}- न्तुः पा ४, १, ९७.
 सौधावकि- पा ४, १, ९७; पाप ४, १, ८०; पावाग ४, १, ७९.
 सौधातवया- पा ४, १, ८०.
 सुधाम्^{२०} जैशौ ८: ३१.
 सुधामन्^{२१}- (>सौधामनि- पा.) पाप ४, १, ९६.
 सु-धामन्^{२२}- न्ना जैशौ २: १८^{११}.
 सुधामित्र- (>सौधामित्रिक- पा.) पाप ४, २, ११६.
 सुधायुक्^{२३}- पाप २, ४, ६९.

सुधावत्^{२४}, न^{२५}- (>सौधावति- न्वनि- पा.) पाप ४, १, ९६.
 सुधित, ता^{२६}- पा ७, ४, ४५; -तम् आपमं १, ५, १२१; -ताम् काण्ठ ४६: १८.
 सु-धी- -धिवा अथ ७०, ११, १; -धोः अथ १५, १, ८.
 सु-धी^{२७}- -धीम् वाशौ १, ३, ७, १२१^{११}.
 सु-धीवन्^{२८}- -वनि पावा १, २, १८^{११}.
 सु-धुर^{२९}- न्तुः बौधौ ३, २३: ७; -नम् पाप १५, २; -नान् आपधौ १६, ६, ४; माधौ ६, १, २, २६; नाधौ.
 सुधूपकद्वाराहि^{३०}- -हयः बौधौ १७: ९.
 सु-धूपित, ता- -तम् बौधौ ९, ३: २८; -ताम् बौधौ १०, ६: ५.
 सु-नक्षत्र- न्नाम् आधि २, ७, ६: २८; अथ १, ११, ३१; -त्रे अथ ६८, ४, ६.
 सुनफा- पाठमो २, २, २१८.
 सुनामन्^{३१}- (>सौनामि- न्वनि- पा.) पाप ४, १, ९६; १३३.
 सु-ना(इ >)हा^{३२}- -नाम् बौधौ १४, १०: ८.
 सुनि- न्निः अथ ४८, ११६१.
 सु-निगुप्त- न्नाम् वीष २, २, ३०^{११}.
 सु-निमित्तो(वा इत्^{३३}-व)पलक्षित- न्नाम् बौधौ १२, ४: ४.
 सु-नियता(त-भा)व्यन्- न्नाम् बौधौ २, १, ५३.
 सु-निविष्ट- -ष्टान् नावि १, ६, ९.

२) वप. खल् प्र. । ४) सहसा सुदु^३ > स्वामु दुष्टरः इति जयराम-विघनाशौ । ८) विष १ द. । ८) व्यप. । ९) = सु-दुपा । १०) तत्थे सुप् प्र । ११) विप. (पाठ), व्यप. । १२) वत. । १३) अथवाचोर्षे प्र. । १४) = [मैत्रिकारदीन-] जाति-विधेय- इति माधम् । १५) = न्यन्-। हान्दसः लीप्-अभावः । १६) पाणे. वैप १ मा ३८, १४ टि. द. । १७) = अथत्त- सेन- [बन्दी इति नना.]। सु. इ. । <सु + चि इति शक. । १८) विप. (गविन्) । १९) पाणे. वैप १ सुगुप्तत्वे शी ६, १, २ टि. द. । २०) पाठः १) नमुषाम् (भा.) इति घोषः (टि. २१५२ b) । २१) वत. । २२) सुपर्वक- इति पाठा. । २३) पाठा. पाठः । २४) वत. वप. ✓धो + अधिक्तरणे विप् प्र. । २५) सुधीं बोधिम^३ > सपा. काठ १, १२ सुधीन् बोधीन् इति पाणे. । २६) वप. ✓धा + कनिप् प्र. । २७) छ. पाप. । २८) पाठः वनि. घोषः ।

सु निधिता(त-म)र्ष- र्धा. अथ
५१,४,३.
सु निपण- > ण्ण-२०- क्त्वं वैष
३,५,८.
सु-नीनि- ति: कौस् ८२, १३१,
विष २२,५, -नीं वापथी ४,
५,३, वीथी २८, १: ११, २
१०, माथी ४, १०, १-३, वैथी.
सु-नीति- ति कौस् १३५, १
सु-नीथ- पाठो २, २, १५१, -पथ:
अथ ४८, ६२, वृदे ६, ८१, साभ
१, २०६, निष ३, ८, क्रमा
१८, १, -यास या ४, १५१.
सुनेष- (> सौनेष- पा) पाम ४,
३, ७५
सु नौ- नावम् हिथी १०, २, ६,
वाए ३, १५, १, वृम २, ४५४.
सुन्द- पाठो २, २, १६६
सुन्दर- पाठो २, ३, ३८, पाम ४,
१, ४१, ४२, ४३, -रम्
अथ ७०, १२, ३
सुन्दरी- वा ४, १, ४१, ४२, ४३
सुन्दरहरित- ता वीथी ४५ ४.
सुन्वस्- √सु (अभिषे) द
सुन्वन्ताय: वैथीका ८८
सुन्वायाम् वनिम् ७: २०
सु पतन, मा- ना या ३, १२, ४,
३, ७, ११, -मानि या ३, १२
सु पति- ति आपम २, ६, ११
सुपत्नी- वी वीथी १, १२
२९, ६, ३ १४, माथी १, ३,
३, २०, धाए ४, ६, १२,
आमिष् -ना कौस् ७६, २७

सु-पय- -यथा धाथी ३, ७, ५, ४, १,
२, भापथी २४, १२, १०, वीथी.
सु-पय- -यानि या १२, ४२.
सुपयिन्- (> सौपय- पा.) पाम
४, २, ८०.
सु-पयथ- -यथा हिथी ८, ७, १५.
सु-पय- -ये शुभा ४, १११, -देन शुभा
४, १८९.
सुपवा(द-म)वसान-वर्जम् शुभा ४,
२२.
सु-प(द>)दी- पाम ५, ४, १३९,
दी आपथी १२, १५, ६,
हिथी ८, ४, २१.
सु पन्थिन्- (> सौपन्थ-)
सु पत्तिन्- नी क्रमा ७, १३.
सु-पयस्- पाठ ४, २२३.
सु पराच्- षच्- -रक्त्वि ६, १०
१४, -रञ्चि निम् ६, १००४.
सुपसची- -व्य लाथी ८, ५, १२.
सुपरि- (> सौपरि- पा.) पाम ४,
३, ८०.
सुपरिदत्त- > सुपरिक- सुपरिव-
सुपरिष्- पा ५, ३, ८४
सु प(रि>)रीण (द>)खा-
-खायाम् पाथी ४, ११२ ५
सु पर्ण, र्णी- पाम २, ४, ३१, ४, १,
८६, २, ९०, ५, २, ६१, -०
सु १३, ५, -नी पथी ६,
८, ११५, वाथी, सु ८, १,
१४, २, १८, १, १९, १, ४,
क्रम २, ८, ५९, १०, १४४,
-नीम् पथी २, ८, ३, ३, ८,
१, ४, ५, ४, वीथी, सु १७,

४, ३०, ३, -नीम् वीथी ३,
२५ ४१, माथी ३, १७, ७, १,
माथी, सु १, ४, १५, १, -नी
या १४, २९११, -नीम् माथी
२, १३, ७, भापथी ६, २२, १,
१०, २७, १५५, वीथी, सु ८,
३६, निष १, ५, १४, या ३,
१२१, ४, ३१, ७, २४, -नीम्
कप २, ३, ३, ८, -नीम् वृदे
७, ४८, -नीम् वीथी २, ३, ८,
हिथी ३, ७, ४१, -नीम् अथ
४८, ११३, -नीम् माथी ५, १९,
४, -नीम् माथी १, ३, ५, २९, १,
-नीम् आपथी ११, ५, ३, वीथी
१४, ४ १४
सुपर्णी- पामा ४, १, १४,
-नीम् सु ५, ५, ६, ३, ५, -नीम्
वाथी ४, ५० १०, ११, ६४
१, २, सु, निष १, ११, -नीम्
वाथी ४, १४ ३, ५, सु ५, ३,
-नीम् वा ७, ३११
सौपर्णी (वप्रा) - पा ४, ३, ८६,
-नीम् आपथी ६, २०, २, १,
निम् ६, ४ ४१, ७, ९ २२, सु
५, ५, ३१, ४-६, ८, आए ३,
१२, १४, -नीम् सु १, ११,
-नीम् आए ३, १२, १३
सौपर्णी- नीम् वृदे ६,
१२०
सौपर्णी वत-भापिष्- -रम्
वाए २ १०७
सौपर्णेय, था- या वाथी ४,
५० ११, वृदे ३, ११५

a) = शाक-विशेष- । बस इति शक । b) स्वार्थे प्र । c) वस । d) वैप १ द । e) न्य । f) तु पाठम ।
g) सु-ने घो (तु को २, ४४६) इति प्रतीये । h) तु पाका । सुपन्थिन्- इति भाषदा प्रष्ट । i) सप्त काठ ४,
४ स्वपन्था इति पाठे । j) तु पाठः । सुपर्ण- इति भाषदा प्रष्ट । k) पाठे वैप १ सुवर्णे काठ ३१, १४ टि. द ।
l) प्रायेण = विनता- । m) = वात् । n) ददमाद्यर्थे प्र । o) = साम विधेय- । p) = सुपर्णाया- ।
q) = सौपर्णे-सूक्त- । r) पाठे वैप १ सौपर्णाणि टि द । s) = देवता- । t) <सौपर्णे- इति संस्कृते टि. ।

सुपर्ण म(व>)यी- बीम् हिथ्री
 ३,७,४१
 सुपर्णी(सं)यात्पाम्- नम् सु १,
 ४
 सुपर्ण्य- पा ४,२,९०
 सुपर्ण्यक^०-
 सुपर्ण्यन्->सौषवं- पावा ६, ४,
 १४४
 सुपलाश^०- श्रे वा १२ २९१^०
 सुपल्लवित^०- नम् वैथ्री १०,९ १४
 सुपश्वात् वीथ २,४,१३
 सुपाणि^०- मि वीथ्री २, ४:९०,
 १०,७ १०^०xx, हिथ्री, आमिष्ट
 २, १, ५ १९^०, वा २, २६०^०,
 तैप्रा १३ ९^०
 सुपाज- श्रे वाथ २२,१८
 सुपाद्- वा ५४,१४०
 सुपामर^०- (>सौपामाशनि- वा)
 पाग ४,१,१५४
 सुपार- रम्^० सु ५,५
 सुपार,र्या^०- न्वा वीथ्री ६,७ ८,
 -राम काट ४, २०^०, गौष २६,
 १३
 सुपिङ्गल^०-(>सौ^० वा) पाग ४, २,
 ७५
 सुपिष्ट^०- न्वा माथी २, ३,७,३१
 सुपिष्ट^०- न्वाथ वीथि ३२८^०
 सुपिष्प(व>)ला^०- न्वा आथ्री
 ७,०,४, वीथी १०,३ २,१८,
 १८ १६, माथी ७, १५, १०,
 माथी, -राम्य काथी ६ ३,४,

आथ्री ७,१०,३, १०,१०, २,
 वीथी ४,४ २३,६ ५ २०, माथी
 सुपिष्ट^०- न्वा हिथ्री १५ ८,४३
 सुपिष्ट^०- पाग २, ४, ६९^०, ४, १,
 ११२.
 सौपिष्ट- पा ४,१,११२
 सुपुष्पाह- नम् वैथ १,६.४
 सुपुत्र,मा^०- न्वा आपम १,१२,७०,
 माथ २, १८,४^०, -त्रा आपथी
 २, ५, ९, वीथी १, १२:३१,
 माथी २,५,९, माथी १, २, ५,
 ११, माथी १ ३, २, २५, हिथ्री
 १,७,२१, आपम १,४, ५, काट
 २५,५, वीथ १, ४,१८, -त्राम्
 आपम १,४,६, कौष्ट १, ८, ६,
 कांठ १, १२,६, काट २५, ४७,
 वीथ १, ४, १९, हिष्ट १, २०,
 २, -त्रायै आमिष्ट २ १,४ २२,
 हिष्ट २,४,५, -नने वा १२९
 सुपुष्ट^०- पाग गौष २६,१२
 सुपुष्टि^०- इष्ट थप १,११,४१
 सुपू^०- सुवा^० आपथी १, १३,६,
 माथी १, १३,१०, हिथ्री १,३,
 ४१, -न्वा^० कौष्ट २,३४, यासि
 १,७८.
 सुपूजित^०- न्वा थप ६२,१,३.
 सुपूत^०- न्वा अणाय ३,३, -नम्
 वाथी ३,२, ५, २१, आपम २,
 १८, ४८^०, आमिष्ट २,५,१२
 ११, वैथ ३,४,४६, वा १०,
 १६

सुपूत^०-(>सौ^०- वा) पाग ४,२,
 ७५
 सुपूण्य^०- नम् आथ्री १,११,
 ६^०, -ण्य^० आथ्री २,१८,१३,
 वीथी ५,१० २१
 सुपूण्य^०- न्वा तैप्रा ५, ५
 सुपू(व>)र्या^०- न्वाथ वीथ २,४,
 १२^०
 सुपूषाह- न्वा आथ्री ४, ८, १३,
 काथी ८, २, ३५, आपथी ११,
 ४, १, माथी १२,४,७, ५,१५,
 हिथ्री ७,४,२१
 सुपेशस^०- वाठ ४, २२३, -नम्
 आपथी १६,७,४, वैथी १८, ५
 १, हिथ्री, -नम् काथी ७,
 १०, १५, -नम् आपम २,
 १, ७, काट १, १७, १६, पाग
 २, १,१८, काट ४०, १२, माथ
 २, १९ ६, वाट ४,१७, २,
 ३, हिष्ट १, ९,१६, -नम्
 आपथी ४, ५, १, ६, २, ११,५,
 ३, माथी ४,६, ४, ८, ३, वैथी
 १४,४ १३, हिथ्री ६, २, २,
 १०
 सुपूष्य^०- न्वा^० आथ्री २, ३, २७,
 काथी २, १३, २, आपथी ६,
 १९,७, २१,१२, ५, वीथी १४,
 ८ २९^०, माथी २, ३, ७, १,
 हिथ्री ६, ६, १९, १६, ५, १,
 आपम २,३,२५, ६, १, आमिष्ट
 १,१,३:२८^०, हिष्ट १,५,१३

a) = सुपर्ण्यार- । b) इ १६६६ p ३ । c) वैथ १ द । d) यथ । e) पामि वैथ १ सुपाणि मा ११,६३ टि द । f) पाग वैथ १ सुपाणि तै ३ १,११,४ टि द । g) सुवा^० इति पावक. पायम । h) वा मित्रि । i) यथ । j) पामि वैथ १ सुप्रीया मा ४,११ टि द । k) = देवता- । l) यथ । m) यथ इति पायम । n) इ पायम । o) पामि वैथ १ सुपर्णा मा ३,४९ टि द । p) पामि वैथ १ सुपर्णा टि द । q) 'धम् [मिथि] इति शोध इति BW.आय । r) पामि वैथ १ सुपेज्जला शी ८,२,१७ टि द । s) पामि वैथ १ सुपुषो काट ३१, १४ टि द । t) पामि वैथ १ सुपूष्य पि ५,७,१, १० टि द । u) 'वै इति पाठ इति शोध (इ तै ३,१,३,२) । v) 'न्वा इति पाठ इति शोध ।

सुतः, सुत्वा ✓स्वप् द.
 सु-प्रक्षालित-पाणि-पाद-द्वा- -दः
 वैथी ४, २:१; आमिष्ट २, ४,
 १:८; विध २१, १; ६५, १;
 -दा आमिष्ट २, ४, ९:२; -दान
 आमिष्ट २, ३, ५:६; ३, ११,
 ३:७; वीथि २, ११, १५; ३,
 १२, ७; वीथि २, ९, १४; वैथ
 २, १:४; -दौ आमिष्ट १, ७,
 १:६.

सु-प्रक्षालित-पाणि-पाद-वदन-
 -नः अथ ४१, १, ३.

सु-प्रक्षालित-पाद-पाणि- -गिः
 वीथ २, ३, २१.

सु-प्रवृत्त- > सौप्रवृत्त- -स्वे पावा
 २, ४, ५४.

सु-प्रगम(न >) ना- -नाः वा ४,
 १८.

सु-प्रचेतस्- -तसः वीथि ३, ११, ४
 सु-प्र(न >) ज- -जाः आपमं २,
 २०, ३४; आमिष्ट ३, २, २:५;
 माष्ट २, १५:७; हिष्ट २, १४,
 ४.

सु-प्रजस्- -पा ५, ४, १२२; -प्रजसः
 आपथी २, ५, ८; १३, १६, १०;
 वीथी; माष्ट २, ८, ४; -प्रजसम्
 भाथी ८, ३, २०; हिथी ५, ३,
 ६१; वेताथी ८, १६; -जसौ
 वीथि ७७, ६; अथ ३७, ९, ३;
 -प्रजाः आथी २, १, २०; वीथी
 २, १३, २; वीथी ९, १०, ७;
 आपथी; वा ४, १८६; -जोषि.

वा ४, १८.
 सु-प्रजास्-स्व- -स्वम् आथी १, ९,
 ५; १२, ३६; वीथी; काथी १०,
 ५, ३; -स्वाय आथी ४, ८,
 १; आपथी; आपमं १, ३, ३;
 काष्ट २५, २२; वीथि १, ४, १०;
 हिष्ट १, २०, १; -स्वे वीथी १,
 १२, ५; वीथी ३, २९: १७, हिथी
 २, ३, २८; -स्वेन वीथी २, १२,
 १०.

सौप्रजास्- > स्ववा(स्व-वा)
 दि- -दि अथ २, २९.

सु-प्रजापति- -ते विध ९८, १५.

सु-प्रजा-पनि- -निः वीथी ४, ३:
 ७; भाथी; -निम् आथी १९,
 ११, ११; वीथी;

सु-प्र(स >) स- -अ. वा १४, २७.
 सु-प्रणीति- -तिः आथी ४, ५, ४;
 वीथि १३५, १; -निम् आथी
 २, १, २९; वीथी २, २, १४;
 -ती वीथी १८, १५, ५; प्रमाथ
 ६, १; -ते वीथी ५, १०, १०.

सु-प्रतिष्ठा- -शा उगिस् २: २०.
 सु-प्रतिष्ठान- -नः वीथी ८,
 १३:९; भाथी २, ५, १, ४४;
 वीथी १६, १५: ८, हिथी ९, ३,
 ५८.

सु-प्रतिष्ठित- -तम् अथ १, ३१, २;
 नाथि २, ८, ११.

सु-प्रतीक, क- -पाठ ४, २५; पा ६,
 २, ११८; -प्रकः आथी १, १२,
 ३०; आपथी २, ३, १; भाथी

९, ४, २; भाथी ६, २, ५,
 १२; हिथी १५, १, ४९; अथ
 २०, ३, ३; -प्रकम् आथी ४,
 १३, ७; वीथी १४, २५, २;
 वीथी १०, ३: ९x४; अथ;
 -प्रकम् आमिष्ट १, १, ४: ४०;
 हिष्ट १, ८, ४.

सु-प्रवृत्ति- -वा ६, २, ११८.
 सु-प्रवृत्त्य- -वृत् वीथी २६, ३२:
 १४.

सु-प्रवृद्ध- -द्वा वीथी २, ८, १५.
 सु-प्रवृद्धि- -दिः वीथी १२, २१,
 ४.

सु-प्रपाण, ना- -णम् आपमं १,
 ६, १२; काष्ट २६, १२; वीथि
 ४, २, १४; -ना वीथी १२,
 २१, २; वेताथी ३८, २; -जे
 आपथी १, २, ८; भाथी १, २,
 १८; भाथी १, १, १, २; वीथी.

सु-प्रपूर्ति- -तम् अथ ३६, २६, २.
 सु-प्रभाव-तरु(ः) अथ ३६, २५, ४.
 सु-प्रपत- -नः पथ्य ४: १७; -से
 हिष्टि १७: १६.

सु-प्रपत्- -वाः वा ५, २८८.
 सु-प्रपुक्- -ना वीथि २, ९, ७; माष्ट
 ३, १५: १०.

सु-प्रवृत्त- -वृत्तम् वा ३, ८.
 सु-प्रवृत्त(न >) ता- -तामिः वा २,
 २४.

सु-प्रसन्न-मनस्- -नः वीथि १,
 २३.

a) गण. । b) गावे वा स्वप्न तेन निर्णीतयो वा अणु इति कथ्यतः । c) वल. । d) वेप १ द. ।
 e) पथि. वेप १ सुप्रजसः शी ३, १०, ५ टि. द. । f) पथि. वेप १ सुप्रजास्त्वम् शी ३, २, ८, ५ टि. द. । g) पथि.
 वेप १ सौभगाणां वा १०, ८५, ३६ टि. द. । h) प्रात. > उत. । i) गण. गिः <> - <> वा ५, ८३, २
 विमे. । j) पथि. वेप २, १३. सुप्रतीते वेप ५, २, २ टि. द. । k) = छन्दो-विशेष- । l) पथि. वेप १
 सुप्रतीकः काठ ३५, १८ टि. द. । m) पथि. वेप २, १३. सुप्रतीक टेभा १०, ४२, १ टि. द. । n) सु-प्रवृत्ति-
 इति पावा. । o) "मा" इति पाठः १ वनि. सोपः (यु वा १०, ४०, १३ मू. व) । p) गण. > पथ. ।

सु-प्रसू^०-सुः कौष्ट १, १२, ६;
शांष्ट १, १९, ६.
सु-प्रसूत^०-जः या १४, ३१^०; -वाति
या १२, २८.
सु-भ्राह्म^०-भ्राह्म बौधो २६, ३२ :
१४^०.
सु-प्रात-वा ५, ४, १२०.
सु-प्रातः(ः)^०अप १, २६, ३१^०.
सु-प्रायण, णा^०-णम् या ५, २८;
-नीणाः निप ४, १; वा ४,
१८^०; ८, १०.
सु-प्रावी^०-प्रावी शीव ४, ११^०.
सु-प्रिय^०-प्रायः ब्राह्मो १२, ८, १४^०;
१२, १५, ९; हिप्रो २३, ३, २९;
वृद्धे ७, ५६.
सु-प्रित^०-प्रा ब्राह्मो १३, २२, ११^०;
वृद्धे ३, १८; ६, ११९; -कम्
बौधो ८, २० : १०^०.
सु-प्रोक्षित-कम् वैष्ट १, ६ : ५; विप
७३, २५^०.
सु-प्सरसु-> प्सर-तम^०-तम
ब्राह्मो ३, ८, ११^०.
सु-प्र(त्)ता^०-प्रा ब्राह्मि ३, ८,
२ : १०; बौध १, १५ : २०;
माति ११२; १२०.
सु-फलीकृत^०-तान् ब्राह्मो १, २९,
१; बौधो २०, २१ : ११;
भाभो १, २२, ११; वैधो.
सु-फाल^०-फालः ब्राह्मो १७, २,
१९; पाष्ट २, १३, ४; काष्ट ७१,
५; अम ३, १०.

सु-फे(न)ना^०-नाः बौधो
१३, ३८ : ९; आमिष्ट २, ५,
१० : १९; अत्राय ६, २.
सु-व (> सुवो-वा.) पाण ४, १,
४१.
सु-व(ह)वा^०-वैवात्तु आपमं १,
४, ५, ६, ७; काष्ट २५, ५; बौध.
सु-वभु^०-वभुवे वृद्धे ७, ९९; -वभुः
ब्राह्मो ६, १०, ४^०; अम २, ५,
२४; शुभ १, १९२; राम २,
४५९; -वभुम् वृद्धे ७, ८८;
-वभोः अम २, १०, ५६; ६०;
वृद्धे ७, ८५; ९४; ९९-१०१;
चाय ३० : १९; -वभो वृद्धे ७,
८९.
सु-वहु-हु अप ६८, १, १०; -हूनि
बौध ४, ६, ८.
सु-वाहु^०-हुः ब्राह्मो १, १५, ४; ८,
१८, १; बौधो ९, ४ : ९; १०,
७ : १०.
सु-वीरण^०-ण, णः आपमं २,
१६, ३, १.
सु-वीरिण^०-ण, णः भाष्ट २, ७;
११, १०.
सु-वुच-वुच अप १, २८, १; अभा
८, १.
सु-वु(ल)ध्नी^०-ध्नीः हु २५, ५.
सु-वुध्नी^०-ध्नीः बौधो १४ : २.
सु-वोध^०-वोध संघ ५.
सु-वृहस्प^०-वृहस्प बौध २, ५,
२१^०; विप २, ५९.

सु-ब्रह्मन्^०-ब्रह्म निम् ३, ८ : ९;
-ब्रह्म शांष्टो १२, २१, २१^०.
सु-ब्रह्मण्य, ण्या^०-ण्य ब्राह्मो
१०, २८, ४; १२, १, १३xx;
काठभौ; द्राष्टो १, २, २७; ३,
२; -ण्यः ब्राह्मो ४, १, ६;
शांष्टो; लाष्टो १०, १२, १७^०;
-ण्यम् ब्राह्मो १०, १, ९^०;
२८, ५; बौधो; -ण्यया ब्राह्मो
२१, १२, १०; बौधो २६,
१२ : २०; हिप्रो १६, ५, ६;
-ण्यस्य बौधो ८, ६ : ११; १६;
२ : ५; वाष्टो ३, ३, ४, २०;
विष्टो १४ : १४०; -ण्या ब्राह्मो
१२, ४, १९; काष्टो २२, ५, ३;
ब्राह्मो; -ण्याम् ब्राह्मो ८, १३,
२८; द्राष्टो ७, ९, १०; ८, २,
१३; xx; ब्राह्मो; -ण्याय
ब्राह्मो १८, २९, ७; हिप्रो
१३, ७, १५; वैष्टो ३ : ११;
७ : ८; द्राष्टो १, ३, १; लाष्टो
१, २, २३; -ण्यायाः ब्राह्मो
१, १२, १८; काष्टो १, ७, ६;
ब्राह्मो; -ण्यायाम् बौधो १५,
२१ : ४; १६, ३ : १४xx; भाष्टो;
-ण्याये ब्राह्मो ९, ४, ११; १२,
९, १४; -ण्यासु ब्राह्मो १०,
२८, ५; भाष्टो १२, १, १३; १५;
वैष्टो १२, २ : ७; द्राष्टो १४, २,
७; -ण्ये काष्टो १२, ४, २६;
ब्राह्मो १०, २८, ५; १२, ३,

a) वप. <म^०सु (ववा.)। b) अमृतः इति विपत्तं.। c) वैष १ द्र.। d) पाप्ने. वैष १ सुमाख्या
दि. द्र.। e) वप.। f) पाप्ने. वैष १, २२५८ t द्र.। g) = सुवभु- (वैष १ द्र.)। h) = बालमह-विशेष-।
i) ववा. सुवीरण, सुवीरणः <> सुवीरिण, सुवीरिणः <> सुवीरिण, सुवीरिणः इति पाप्ने.। j) वप.।
k) वप. वप. वप.। l) = कान्तिव्येय, विष्णु-। m) द्र. वैष.। n) नाप. (तदाख्य-) निपद-
कान्ति-विशेष, अण-विशेष-। तस्मैद्वितीयः (द्र. सा १ तैष्ठा १, १२, ३) वा तथसापदीयः (द्र. न्यायः [पा १, २, २७])
वा वप.। o) ववा. लाष्टो १, २, २०; ३, १ ण्यो २ इति पाप्ने.। p) द्र. ० (ता २५, ४, ५ शांष्टो १३, २४,
१२); वैष्ट. भाष्टो १ भाष्टो १ दिवम्।

१६, भाषी, -०प्योश्म् काश्री
 ७,९,१०, वीथी ६, १६ ४^१,
 १९, १० ३५ वीथी, लाथी १,
 २, २०, १, १
 सुब्रह्मण्य चतुर्थे- र्धा लाथी
 ९, २, ३
 सुब्रह्मण्या(व्य-आ)ग्नीप्रो (प्र-उ)
 सेवु प्रावस्तुए- न्तुदम्य लाथी
 ९, १, १३
 सुब्रह्मण्या निवृत्ति- नित काश्री
 २२, ३, ३०.
 सुब्रह्मण्या प्रणव- नै द्राथी ९,
 ४, २४, लाथी ३, ८, १५
 सुब्रह्मण्या प्रतीक- कम् वीथी
 १०, २१, १७
 सुब्रह्मण्या प्रैव- न्याव काश्री ८,
 २, २२
 सुब्रह्मण्या-साम-जप न्यूह्ल-
 याजमान-वर्षेय काश्री १, ८, १९
 सुब्रह्मण्या(एवा-आ)द्धान- नम्
 काश्री १२, ४, २७, -ने वैताथी
 १५, ४
 सुसु ब्रह्मन्- -हा आपम २, ६, १,
 आमिष्ट १, १, ३ २८, दिष्ट १,
 ५, १३
 सुब्रह्म-जन-क्षय- नम् अण
 ७०^१, ११, ३
 सु ब्राह्मण-> ष्णम-भोत्रिय वेद-
 पाण- नोम्य वीथ २, ३, १९
 सु भय, गा- पा ६, २, ११८, पाण
 ४ १, १२६, ५, १, ११०^१, ६,
 ३, २३, पाणय ५, १, १२९,

-फंग काश्री ४, २, १२, ४१,
 आपथी, -फंग वाथी २, २, ३, १,
 या १२, ३, -फंग आपथी २,
 २०, ५ वीथी १, १७ १४,
 २६, १: १२६. भाषी, आपम २,
 २, ९^१, कौष्ट २, १, २९^१, आमिष्ट
 १, १, २: २७^१, २, १, ५ १९^१,
 काष्ट ४१, ११^१, कौष्ट २, ५, १३^१,
 भाष्ट १, ६ ९^१, वाष्ट ५, ७^१,
 जैष्ट १, १२. ४६^१, आज्यो १३
 ७६, -गा कौष्ट १, ८, १, रांष्ट
 १, १२, १, -फंगाम् आमिष्ट
 २, १, ५ २१^१, काष्ट २५,
 ४७, वीष्ट १, ४, १९, दिष्ट
 १, २०, २, षष्ट २, १०, ८६
 ष्टे ७, ४७६, या ११, १८^१,
 -फंगे आपथी २०, १८, ३^१,
 वीथी १५, २९ २३^१, नाथी,
 दिथी १४, ४, ९^१, आपम २,
 ११, ११^१, भाष्ट १, २२, १०^१,
 कौष्ट १०६, ७^१, अण ३५, १,
 १६, -गौ कौष्ट ७६, २७^१
 सौभाग- पा ५, १, १२९, १२०,
 -गम् भावथी ६, २३, १^१,
 -फंगानि आपथी ५, २३, ९,
 ष्णाय ५, ५, -फंगाय काथी
 २, ११, ९, १२, ५×५, काथी,
 आपथी १८, १५, ३^१, दिथी
 १३, ६, १९^१, -नोमि अथाय
 ६, १^१
 फंतीभग तव- न्नाय^१ भाष्ट
 १, ७, ३, कौष्ट १, ८, १७, रांष्ट

सौभाग्येय- पा ४ १, १२६
 सौभाग्य- पा ५ १, १२४,
 -न्यम् वीथी १, १२ २१^१,
 वाथी १, ३, २, २१^१, आपम,
 -न्यस्य अण ३५, २, ४, -न्यानि
 आज्यो ३, ५, -फंगाय कौष्ट
 ७६, २४, २७, -फंगेन गाष्ट
 १, १९, ४, २, १४, २३, वाष्ट
 १३ २, -नै अण ३३, ६,
 १०
 सौभाग्य-कर्मन्- नानि
 आज्यो ८, ३
 सौभाग्य तव() षष्ट २, १०,
 ६
 सौभाग्य-विता(त व) वैष-
 ष्य-क(म>)मा- नगा षष्ट
 २, १०, ३
 सुभग-करण- पा ३, २, ५६
 सुभग-तव- तव्य पाष्ट १, १८, ५
 सुभगं भविन्तु- आलुक- पा ३,
 २, ५७.
 सु म(ह>)द्रा- द्रम्य वा ११,
 ३४^१
 सु-भर- न काथी ३, ८, १०,
 हाथी १३, ४, २
 सुभ्र भव- नव हाथी ६, ८, १,
 १, आपथी १३, १६, ८
 सुभ्र-भवत्- नव काथी १२,
 ११, १, वीथी ७, ५, ४२, ६
 १८, वैथी
 सु भव्य- पाण ६, २, ११८
 सु भासु- सु वीथ १३५, १^१

a) पागे वृ २६०० p द । b) वत । c) वैप १ द । d) वग > पाण अण < वृत्ति (अरे) ।
 e) वृ पाणम । f) पागे वैप २ ३० सुभगा मगा १, ६, २७ टि द । g) पागे वैप १ सुभगे अ २,
 ३२, ५ टि द । h) पागे वैप १ सुभग्य मे ४, १२, ६ टि द । i) पागे वैप १ सुभगी त १, ७, ११, १
 टि द । j) पागे वैप १ सुभगे ते ७, ४, १९, १ टि द । k) पागे वैप १, १९१६ द द । l) पागे
 वैप १ सौभाग्याय षष्ट १०, ८५, ३६ टि द । m) पागे वैप १, १७६८ द द । n) पागे वैप १ सुभय
 मा ७, ३ टि द । o) वृ पाणि ।

सु भिक्ष^०-श्व वीथी २५, ६:७,
-सम् वीथी २ १५ ३, अण.
-सा. वापथ १ १८ ५, हिय
१५, ७५, -शाय वीथी २५,
६:८
सुभिक्ष क्षेम-द- दौ अण ६४, २,
५
सुभिक्ष क्षेम-तपचि- रथा अण
७०, ४, ४
सु भिक्षण^०-गम् माण ३, १४
२२
सु-भि(व>)वा^०-गाम् आणित ३
५४-२४
सु भिपह-> षक् उम-म वीच
४, ४६.
सु भु^०-भव लाथी ३, ११४^०,
-ओ द्वित्री १०, ५, १२^०, श्वाथी
१०, ३ ७^०, लाथी ३, ११, ७^०.
सु भुह-भुज अण २०, ३, १
सु भू^०-भुव द्राथी १०, ३, ७^०,
-भू आथी १०, ९, ५, श्वाथी
१६, ७, १, १७, १३, १०^०,
आथी १३, १६ ८^०, वीथी १,
१२. ४४^०×४, माथी २ ६,
१०^०, वैथी १६ २० ५^०,
द्वित्री १०, ५, १२^०, द्राथी ६, ३,
१३^०, लाथी २ ११, ७^०, श्वा
सु भूत^०-नम् श्वाथी २, ८, ८^०,
आथी १३, १, ११, २१ ११,
११, वीथी १६, ६, ३१^०
-वाय श्वाथी २ ८ १५ आथी

-वे वापथी १६, ३०, १, वैथी
१८, २०: ४७, द्वित्री ११ ८, ४,
-जेन आथी ४, १२, १०, माथी
४, २०, १, द्वित्री ६, ४, ३२.
सुभूत हृत्- -रुण श्वाथी २ ८,
८^०, आथी ६, ६, १०, माथी
६, १०, ११.
रसु भूत^०-(>सौभूत-वा) पाण ४,
२, ७५
संसु भूति^०- ति: आथी ४, १२,
२^०, वैथ १, १८: ९
रसु भूति^०-ने वाद्य ३०. १४,
सु भूमि- मि आणित ३, ५, ५: ५,
-मिम् द्विषि १: ५, गोण १,
४, ५
सु भूत^०- भूत आथी ४, ७, २,
माथी ४ १०, ३, वैथी ५ ७
११, द्वित्री ६, २, १७
सु भूत^०-नम् श्वाथी ८, २०: १७^०
सु भूतय- रथा माण २, २७ १,
-त्यानाम् आथी १०, ४.
सु-भपज- नितम् वीथी ५, १६:
१३, द्राथी १३, २, १३, लाथी
५, ३, ५, -जय वाद्य १०
२, -जे श्वा १६, ८८
सु भूत^०- अम् वीथ २, ५, ५३, द्विष
१, ७, १६
सु भ्रान्त^०- (>सौभ्रान्त- वा) पाण
५ १, १३०
सु-भू^०- अम् विप २, २३
सु भूत^०- अम् या ११, ९, -खरव

या १२, ३६, -वाय श्वा ८,
४३, -वै वीथी ७, १०, १०
सु-भद्रल ला^०- पाण ४, १, ३०, ४१,
-०ळ शुभा २, २०^०, -निल
वीथी १२ १५ ७, या २, ४६^०,
-वा आणित ३, २, २ ८^०,
-निली^० आथी १८, १९, ६,
वीथी १२, १५-७, द्वित्री १३, ६,
३१, -०ला: वाथी ३, ३, ३, ११
सुभद्रली^०- वा ४, १, ३०, ४१,
-निलि वाण ५४, ४, कौण
२४, १३×४, विष ६७, ८,
-निली आणम २, २०, २०^०,
पाण ३, २, २^०, माण २, २
८, माण २, ८, ४, द्विष २,
१७, २^०, वैष ७७ २०
रसु भद्रल^०- अम् जेण १, १: १७^०,
कौण ५०, १६^०, अण ७, ३, ८
संसुभद्रली^०- ली आणम १, ९,
५, आण १, ८, ७, पाण १ ८, ९,
काण
रसु भद्रल ला- पाण ४, २ ७५^०, ३,
६३^०, ४, ५३^०, -ला अण ५ १,
५^०
सौभद्रल- वा ४, २, ७५, ३, ९३
सुभद्रलिक- वा ४, ४, ५३
सु भवि^०- नि श्वाथी १२, २१, २^०
सु भूत^० आथी ५ ९, १, निष ४, ३,
या ६, २२^०.
सुमत^०- (>सौमतयव- वा) पाण
४, १, ९९

a) सगृहपर्ये अथ (व दुर मिल- टि) वा वत वा । b) गण । c) वैप १३ । d) स्या-
भव <> सुव इति पाम । e) स्या मे ४, ६, ६ सुभव इति पाणे । f) ओ इति पाठ २ वनि वीथ ।
g) पाणे वैप १ सुभू वै १ ६-० ६, १ टि द । h) स्या आथी २ २, १५ ३, ९ सुहु^० इति पाणे । i) सभू^०
इति पाठ २ वनि वीथ (इ वापथी) । j) स्या आथी २ २, १५, ३ ९ सुहु^० इति पाणे । k) स्या ।
l) = सु भूति- (वैप १ ६) । m) पाणे वैप १ सुभूता काठ २२ १४ टि द । n) वत । o) पाणे
वैप १ सुभद्रल टि द । p) स्या स्या<> ली इति पाणे । q) पाणे वैप १ सुभद्रला वै १ १०४, २ टि द ।
r) सु पाणम । = २७-विषय । s) = सुवन्वय-व विषय- । t) = श्रोपि-विशेष ।

सुमति- -त्व आपम २, ११, ११, आश्रित्य, -ति औश्री ८, १५, १५, बाश्री १, ६, २, ४, आपम, -विम् आश्री ३, ८, १, ४, १, २३x, बाश्री, -सौ आश्री ८, ८, ४, बाश्री ९, १४, १४, आश्री, या ७, २२क, २२, १९क, १२, ३९ड, -त्वा आश्री ३, १०, १६, आपश्री ३, २०, १०x, औश्री, सुम(ति>)वी-वृध- -वृध शुभा ३, १४क
 सुमते भाए २, ३२, १५
 सु-मच-नागेन्द्र- -न्द्र, याशि २, ८१
 सुमत्पद्मदे^० आश्री ५, ६, १
 सु मध्य(म>)मा^० -मा अय २१, २, १
 सु-मनस- -नसा कौश ३, ४, ५क^०
 सु-मनस^० - पाग ३, १, १२, -न कौश ६८, ३१क^०, -नस आश्री २, ५, १७, बाश्री, -नसय अय ७, १, ७, -नसा बाए १६, ७क^०, -नस आश्री २, ५, १७, ४, ६, ३x, बाश्री, आपश्री ६ २७, ५^०, हिथी ११, ६, १४^०, दाश्री ७, ३, १^०, लाश्री ३, ३, १^०, आपम १, १, ४^०, बाए २, ३, ६^०, कौश ३ ४, ३^०, बाए १, ३ ३ड ३, ७, ३^०, बाए १, ४, १६^०, आश्रित्य १, ५ ३, १०^०, कौश १, १, २५^०, बाए १ १०, ६^०, बाए १४, ३^०, हिथ १, १६, १८^०, २०, ३^०, जे

१ २१, १५^०, अय २०, ५, ६ड, डमिथ ६२, ५, ६६, १५, ६८, ४३ ७३, २७, डवृदे ७, ६५, ७६
 सुमनस^० -स आपश्री ६ २७, ३, हिथी ६, ७, ८, दाश्री ७, ३, १, लाश्री ३, ३, १, कौश, -सम् आपश्री २, ५, २, औश्री १, १२: २१x, भाश्री, -साम आपश्री २४, १२, १०, कौश १, १६, १८, बाए, -से वा ११, १९क
 सुमनस्य- -स्यम् आश्रित्य २, ३, ३ १४, वप्र १, ४, ६
 सुमनस्य पा ३, १, १२, सुमनस्य साम्, परन्ताम् कौश ४, २, ३
 सुमनस्यमान, ना- -ना: आपश्री २, ११, १, १४ २८, ४x, ५^०, औश्री, -नम् औश्री ९, ६ ५, -ना जेए १, २० २३, -मा औश्री ३ १५: ९, हिथी ६, ७, ८^०, औश्री १७ ५, दाश्री ६, १, १, लाश्री, हिथ १, २९, २^०, -माथ आपम १, ४, ६, आश्रित्य १, ५ २, ५५, बाए, -सौ आपम १ ३, १४, आप १, ७, ६, बाए १, ६, ३
 सुमनाय पा ३, १, १२
 सुमनस^० - पाश्री २, १, १४, -नस कौश ४, २, ३, बाए ४, १५९, बाए, -नोमि बाए १, ८, ७, कौश १, ८, ३, वप्र ३, २, ४, अय ६८, ५, १

सुमनो बुध- -नम् वप्र ३, १०, १८
 सुमनस^० - (> सौमनसायन- वा) पाग ४, १, ११ ११०
 सुम(न>)ना^० -नामि हिथि १७, १५क^०
 सुमना सु(न>)खी^० - -लि कौश ३, १५, ३^०; ५, ६^०, बाए^० ३ १२, ५, १४, २
 सुमनायन^० -ना औश्री ५: २
 सु-मनुष्य-वत् -वत् पाथ २, ३५
 सुमनोत्त^०(, ३^०)र- (> सौमनोत्त [एशिक- वा) पाग ४, २, ६०
 सुमन्तु^० - न्तु बाए ४, १०, ३, अय ४३, ४, १८, -नो सुध ६७, बाए ४२ १५
 सुमन्तु जैमिनि वैशम्पायन वैल- सूत्र भाष्य भारत महाभारत- धर्माचार्य- -र्यां बाए ३, ४, ५^०, सुमन्तु-जैमिनि-वैशम्पायन वैल- सूत्र-भाष्य-महाभारत धर्मा-चार्य- -र्यां कौश २, ५, ३^०
 सुमन्तु जैमिनि-वैशम्पायन वैल- (ल-मा)धा(दि-मा)धाय- -र्यां बाए ६, ६, ११^०
 सुमन्तु धर्म- -र्मम् सुध १
 सु-माष्ट- -न्द्रम् बाश्री ४, ८, २१
 सुम ह-न(ग्र>)न्दा^० -न्दा बाश्री २ १५ ११
 सुम मन्मन्^० -ममि आश्री १४, ११, ४, हिथी २०, ६, ९, -मा साम २, १००^०, उमिथ ७ २१

a) वेव १ द । b) वत > क्त । c) वे २ रत द । d) वत । e) पागे वे १, १४ १६ द । f) पागे वे १ सोम का १, ११, १२ टि द । g) पागे वे १, ७१२ १० द । h) पागे वे १, २०, ८५, ४४ टि द । i) पागे वे १, ७१२ १० द । j) राधा दिथी १५ ७, १२ परियत्तो न इति पागे । k) पागे वृ १२४ क द । l) = पुनः । m) म्यन । n) तय = १माय् । o) पागे वृ १५४ ३ १ द । p) व पादा । q) वृ. पागम । r) परारं पागे ।

सु महत्- ह्य अप ६४, ८ ५, विप
 ९६ ३८, सुवे ६, १४०, ७, १९,
 या ५, २२, ११, ९, -ह्य वा
 १२, ३, -ह्य वा ७०^३, २, ४,
 -हान्ति अप ७०^३, १६, ५
 सुमहत् पर्यगो(त-उ)प, मा(>)म-
 -म अप ६२, ४, २
 सुमहत् यत्- -यम् अप ५०, ३, ५
 सुमहा-मा(ग>)मा^०- -मे अप ५
 ५ ५
 सुमहा यदात्- -शा सुदे ५, ७२
 सुमहो(शा त)स्य^०- -सै अप ७०^३,
 १, ४
 सु महत्- -हा मैम ११.
 सु-भा(वा>)य^०- वा. वा १२,
 १४^१५
 सुमित-वु^०- -द्व वा १२, ४४.
 सुसुमित्र, त्रा^०- -त्र काथी ५ १२,
 १०, कौमुद, ३१, -त्रा^० आपथी
 ७, २७, १६, ८, ८, १५, १३, ११,
 १, १५ १६, १०×४, बीथी २,
 ५ २७, ४७ २६×४, माथी
 सुसुमित्र-धत्^०- -धा^० वीथी ६,
 १५ ८, माथी १०, १८, ५,
 वैथी १२ ११ १०, दिथी १०,
 ३, २६
 सुमित्रि(य>)या^०- -या^० दिथी
 १०, ५ २४^१, -या^० गाथी ८,
 १२, ११, काथी, लाथी २, २,
 ११ ५, ४, १, सुम १, ४१४,
 -याम् लाथी ३, ११, १०

सुसुमि(श्र्य>)या^०- -या^०
 आथी ३, ५, २, ६, २४, ६, १३,
 ११, काथी १३, ३, २२, कैथि
 ३२८, -याम् काथी १०, ३, ४^१.
 सुसुमित्र, त्रा^०- पाग ४, १, १६, -त्र
 मय २, १०, ६९, १०५^१, सुदे
 ८, १७, साम १, १०, ११६,
 २१२, २२८.
 सौमित्र^०- -त्रम् लाथी ६, ११, ४.
 सौमित्रि- पा ४, १, १६, पाग ४,
 २, १३८.
 सौमित्रीय- पा ४, २, १३८
 सु-सु(ख>)की^०- -की नासि १, २, ९.
 सु-सुहर्- -सै अप ६८, ४, ६.
 सु-सुग^०- -गम् अप १, २६, ३
 सु-सुडी, लीप, का^०- -क आथी
 ३, १२, १४, काथी ३, ५, ९,
 शिथ २, १३, ५, -का आथी ८,
 १४, १८, बीथी १९, १० १०,
 काथी १३, २, १०, लाथी,
 -काम् बीथी ६, ७ ८.
 सु मेघ^०->सौमेघ^०- -धम् लाथी
 ७, १, १, निम् ८, १ ३०, -धम्
 लाथी ६, ११, २
 सु मेघत्- पा ५, ४, १२२, -यत्
 माथी २, ४, ६, २६, आपम २,
 २२, १, पाय ३, १३, ५, माय,
 -या. आथी ३, ८, १८, १०^०,
 १, आपथी ६, २७, ३०^०, १६
 १६, ४०×४, काथी, -धाम्
 बीथी २५ ४ १२१

सुमेघ- पाठय ४, १०१.
 सुस^०- पाठयो २, २, १८४, -स
 आपथी १०, ३, ८^०, -यत्
 आथी ३, ८, १, बीथी ८, १
 १९, ९: १९, निप ३, ६, -यत्
 आपथी ११, २०, १३^०, बीथी
 १, १९: ४०^०, ३, ८: ३०, ६,
 ३२: १९^०, वैथी १४, १८, ८^०,
 बीथ ६८, ३१, -यत् आथी ६,
 ३, ९, आपथी १०, २३, ३, ११,
 २०, १३^०, बीथी १, १९,
 ४०^०×४, ६, ३२: १३^०, माथी,
 वैथी १४, १८ ८^०.
 सुमनय> सुमनयत्- -यत्
 श्रुत्रा ९, १८, २१
 सुमनया^०- -या श्रुत्रा ५, २०^०,
 शीथ ४, ३०^०.
 सुमनु^०- पाठयो २, १, १७
 -यत् दिथी ३, २, ५३, कथा
 ९, १५
 सुमद्- -ह् माथी ६, २, ५, ९
 सुमनाय पा ७, ४, ३८
 सुमनायत्- -यत् आपथी १७,
 २२, १, दिथी २२, ६, २६, कथा
 ९, २४, -यत् त्रिपा ३, २
 सुमनायु- -यत् आपथी ५
 ६, ३, दिथी ३, २, ५६, कथा ९,
 १४, -यत् कथा ९, २२, -यत्
 माथी २, २, ५, १४^०.
 सु(न् >)म्ना-व(> >)
 री^०- सी अप ४८, ११०, निप

a) वस । b) वैप १ द । c) वस द्य = पुष्कल, उप भाप (वैदु तु उत इति) । d) पामे
 वैप १ सुमिन्ना तै १, ४, ४५, २ टि द । e) पामे वैप १ सुमित्रय मा ४, २७ टि द । f) ह्य ह्यम् ।
 g) = श्रुत्र- । h) परस्पर पामे । i) वृ १२९३ ३ द । j) व्यप । k) = सप्त विशेष- । लैमि इति पाठ ।
 लनि शीथ (व ह्य) । l) = नृणां विशेष- । m) व्यप । नस । n) = राम-विशेष । o) पामे वैप
 १ सुमेघा मा ३ ४१ टि द । f) पामे वैप १, २०५७ ह्य द । g) पामे वैप १ सुमनुय तै १, १, १३, ३ टि
 द । १) पामे वैप १ सुमनुय तै १, ३, १ टि द । ३) पामे वैप १ सुमनुय क १०, १०१, ४ टि द । ४) पामे
 वैप १ सुमनुय वी ७, ५७, २ टि द । ५) पामे वैप १ सुमनाय क ३, ९ टि द ।

१, ८, कप्र ९, ११.

सुम्नि(रु>)मी- ००नी^३ बौध्री
१, १५.४०, तैमा ४, १२,
००नी^३ आपथ्री ११ २०, १३^३,
बौध्री ६, ३२ १२, वैश्री १४,
१८ ८.

सुयञ्ज- नयञ्ज माधौ ५ १, २, १७,
-यञ्जा आध्री १, ३, १२, शोध्री
१, ५, ७, आपथ्री ५, ६, ३, माध्री

सुयञ्ज- पाग ४, २, ८०^३, -ञ्ज
आपथ्री ५, ६, ३, ३, हिश्री ३, २,
५५^३, कौष्ट २, ५, ६^३, -ञ्ज^३
आथ ३, ४, ४, कौष्ट २, ५, ३,
शाष्ट ४, १०, ३, ६, १, १, अप
४३, ४, ३१

सौयञ्ज- पा ४, १, ८०

सुयञ्ज-साह्यायन-पात्कृष्य- अर्था
कौष्ट २, ५, ३

सुय(न्य>)भ्या- न्या शोध्री
१२, २१, ४

सुि.सु'न्यम,मा- नम् आपथ्री
३, १५, ५, आपम १, १, २,
आमिष्ट १, ५, १ २, काष्ट
-मान् तैमा ९, २३, -मै^३ काश्री
३, १, १६, आपथ्री, माध्री १,
३, १, ११

सुययस- स बौध्री २७, १४
४, -सान् आपथ्री ५, २३, ३

सुययस->सौयमति- सिम्
शोध्री १५, १९, १, -से वाथ
१७, १२

सुययामन्- ००मन् अप १६, ७^३

सुययामन्->सौयमामनि- पा)

पाग ४, १, १५४

सुययामि->सौयामि- सिम् शाष्ट
४, १०, ३^३, अप ४३, ४, ५२

सुययामिन्- मी शोध्री १२, २१,
२^३

सुययुक्त- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययामि- निम् आपथ्री १६, १२,
११, हिधौ ११, ५, ७

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुययुक्ता- ङ बौध्री १०, ४ : १८^३,
आपथ १, ५, २३, ८, २४, हिप
१, २, २४, ११२

सुरासुर युक्त- ङम् विध १, ६०

सुरासुर नमस्कृत- ००त अप ६६,
१, १

सुरे(र-र)न्द्र- न्द्राप अप १९^३,
५ ८

सुरे(र ई)का- ङ अप १९^३, ५,
९, -शाय अप ६६, २, ६^३

सुरे(र ई)श्वर- र अप ६७, १,
७, -रा. विध २०, २४, -रा^३

बोध ४, ८, ३

सुरो(र-उ)वम- ००मा अप ३१,
२, २

सुर- रा बौध्री ४१ १

सुर-क- सुरा- र

सुर रचित- ङ पाठ ३, २, ६^३,
-तम् वैश्री ३, ५ १०, ८.

११x, -ताम् वैश्री १४, ५

१०, १५ ११ १x, -ताम्
वैश्री १५ ११ २०, -ते वैश्री
३६ ११, १०, १० १, -सौ
वैश्री १४ ६ ७, १७, ११ ११

सुर- पाठो २, २, ६७

सुर-र(र>)का- पाग ४, १, ५६

सुर रजस->सुराजस- पा) पाग
३, १, ३२

सुर-रप- -आम् या ७, ६ -गामि
या ११, ५-३

सुरत- पाठना ५, १७

सुर-रत्न,रत्ना- -न आथ्री ३, ७,
१४, १०, ६, १, शोध्री, आमिष्ट
३, ७, ११ ९^३, कौष्ट १, १० ९^३,
वाष्ट, -रत्ना आपथ्री १, ८, ३;

a) पाठ ४ २६७४ ७४ ।
e) व्यप । f) माध्री. पाठ ।
g) <सुययस- इति वा (रैना ७, १५)।
(वै १ ४) । h) पागे वै १ स्व
विशेष- । तन । i) देवस्य ।
वै १ सत्रोपा वा १०, १६, ६ टि. द. ।

b) वै ३० नी इति ।
h) पागे वै १ सुयमे मा २, ७ टि द ।
j) = सु-यामि- । k) पागे ४ २६६४ ६ ४ ।
l) = स्व-
मे १, १, ५ प्रथ टि द । m) = देव- ।
q) द पागम ।

c) वै १ ४ । d) कर्ष १ ।
h) वस ।
l) = स्व-
o) = अयुर-
j) पागे ४ २६४ ८ ४ ।

-वात् प्रथ ८, ३०.
 सुर्य- -व. वीथी १८, १९: १४^०,
 -पथम् आपथी ४, १, ८, वीथी
 २०, १ २७, भाथी, -था
 मथ ८, २११
 सुरभि भी(वथा)^० -भमव काथी
 १३ ३, २६^०, आपथी १३,
 २२, १^०, २१, २०, ३^०,
 वीथी १६, २३ १^०, वाथी,
 -मये आथी ३, १३, ११^०,
 -भि गोथ ४, ३, १६, ४, १३,
 जैथ, -पथि आपथी २०,
 १५, १३^०, आपथ २, ७, २४,
 कौथ, वथ २ ८, ५९, कौम्
 १४, १९, चये ५ १४^०, सुथा
 ५, ३७, -मिमि. प्राथ ३, १,
 ७, -मिम् अथ ७२, ६, ६,
 शथ ११६: ३३, -पथिणि
 आपथी १ १०, १४, वीथी २,
 ११ १२, माथी १, १०, १, दिथी
 सौरमेव- -वा नाथि १, ५,
 १६, -वेथ अथ १, ४८, ४
 सौरमेव-युत्- तेन अथ
 १४ १, ४
 सुरभि गथि- वा ५, ४, १३५
 सुरभिद्- -मिणौ कौम् ६७, १७,
 १४०, ४
 सुरभि मत्- -मत् आपथी २, ११,
 १७^०, वीथी १३ ४ २५^०,
 गाथी, वैथी २७, २१, १०^०,
 दिथी १५ ३, ३७^०
 सुरभिमत- -तीम् आपथी

२०, १८, ७, वीथी १५, ३०-१,
 २७, ४: १७, दिथी १४, ४, १४,
 सुथ ३, १३, -त्वा आथिद् ३,
 १०, २ १२, वीथ ३, ३, ५, ९,
 ३, वीथि २, ८, १०, वीथ २, ४,
 २, १०, ३२
 सुरभि मिथ- -थै गाथ १, ११, २^०,
 सुरभि-सगृह(त>)थ- -आ: अथ
 ३६, ७, ४.
 सुरभि सुगाता(त-अ)मुलेग-
 -नी अथ १९, १, ३
 ?सुरभी हसि-मेदस- -दसा अथ
 ३५, १, १५
 सुरभ्या(मि-प्र)स्व-त्व- -त्वाथ
 शथी १, १२, ५, वीथी ३, २९:
 १८, दिथी २, ३, २८
 सुरभणीय- -वानि या ११, ५०
 ?सुरभत- -वा अथ १, ४०, ४^०,
 मत्ता १०, ४.
 सुरभिम- -शेमे वाअ ५-३.
 सुरस-(>सौरसेय- वा) पाग ४,
 २, ८०
 सुरा- पाठ २ २४, पाग ५, २,
 १२७^०, ५, ४, ३, -रथा माथी ६,
 १, २ २६^०, वीथ १, ७, २, गाथ,
 -रा आपथी ३, ९ ४^०, आपथी १९,
 ३ ४^०, वीथी, आपथ ८ ७५^०,
 निथ १, १२^० वा १,
 ११^०, -राभि विथ २२, ७७,
 २३, १, -राम् माथी ३, ९, ४,
 गाथी, -रथा शथी १५, १५,
 १३, आपथी १८ १, ९, ४, गाथी,

-रावाम् आपथी १९, ७, २,
 दिथी २३, १, २६, वैथी, पाग
 ५, ४, ३, -रायै वीथी २२, १२.
 १४, २३, १६ ७.
 सौर- -रम् काथी १९, २, ६,
 -रागाम् काथी १९, २, ३३,
 वैताथी ३०, ११, -राणि सुभ
 २ ३६, ४, -राम् काथी १४, २,
 ४, ४, ११^० × ×.
 सौर-प्रभिगृह- हाय काथी
 १४, ३, २०, ४, १५
 सौरिक- -रम् वाप १६, ३१.
 सुर- -वा ५, ४, ३.
 सुरा(रा-आ)कर- -रम् वीथ १, ५,
 ५०
 सुरा कर्म- -राम् दाथी १३, ४, ५,
 लाथी ५, ४, ११
 सुरा कलय- -राम् माथी ५, ९, ४,
 १४
 सुरा-कुलिज- -राम् कौम् १२, ७
 सुरा मद्- -हा: आपथी १९, ८, ८,
 दिथी २३, १, ३५, सुभ २,
 ३७, ५, -हागाम् आपथी १८,
 ६, १७, वीथी २२, १४ ३^० × ×,
 वैथी, -हान् काथी १९, २, २५,
 आपथी १८, २, ५^० × ×, वीथी,
 वैथी १७, १७ ७^०, -हैम्
 वापथी ३ ६१ ९, -है आपथी
 १८ ७, १, २, गाथी
 सुरामह पाठ- -राभि आपथी
 १८, १, १७, वैथी १७, ९ ३,
 दिथी १३, १, १६

a) वैथ १ ८ । b) अथ । c) विशेष दि ८ । d) = गो- । e) सुरभयो इति पाठ १ यनि
 शोध (इ मै १, ३, ३९) । f) = अथि । तथा सुरभये <> सुरभिमते इति पाठे । g) = बलीवर्द- ।
 भरुवासे ठक् प्र (वा ४ १ १२०) । h) = अत्त [अ ४, ३९ ६] । i) पाठे ४ १७८५ b द । j) इव >
 पठ । k) = अथि विशेष । लस । l) इ पागम । m) = १७२८ । n) विरा- इति आ । o) विप,
 नाप (सुरामह) । तत्वेदमाथी अत् प्र । p) विप (अठ [इ वास २, ४७ वीथ १२, ३८]) । ठक् प्र । q) इ
 १५९ d द । r) 'रम्' इति पाठ १ यनि. शोध ।

सुरामहा(ह-अ)थे-थेम् आथथी
१८,१,११; १९,१,१५.
सुरा-महणा(थ-अ)थे-थेम् वैथी
१७,७:१०.
सुरा(रा-अ)जन- नम् अथ २०,
५,२.
सुरा-वैल-आ: आ ७०^३,६,२.
सुरा-देवता->वत्थ-व्यानिष्ठुअ
२,३७१.
सुरा-द्रव्य-व्यम् माथी ५,२,४,२.
सुरा-धान-ने वीथ २, १, २१.
सुरा ध्वज-अम् विथ ५,५.
सुरा १^०- पावा ३, २, ८; -प:
वीथी २०,२४:३६; वाप २०,
४४; २६, ५; २७, १५; शंभ;
काथ २७८:७^०; -वम् काथी
१५, १५, १४; -पस्म विथ
५१,२५; वीथ २३, १; ७; सुध
५४; सुपा ८६:९; -पाव
वाधुथी ४,४९:२; -वेण वीथी
२०, २४:४०; -वेम्य: कौत्
११,१०.
सुराथी-थी काथ २१,११.
सुरा-पयो-लित्त-हानि माथी ५,
२,४,३८
सुरा-पाक-कम् अथ ३६,१४,१.
सुरा-पान (<न)-णम् वदे ६,
१५१.
सुरा-पान-नम् माथ २,१४, २८;
काथ १,२०; आपथ १, २१, ८;
वीथ; -नस्म अथ ९,३,५; -ने
विथ ५,५.
सुरापान-सम^०-मौ विथ ३६,२.

सुरा-वीथ-धात् वाधुथी४,४९:२.
सुरा-माजन-(स्थ>)स्था-स्था:
शंभ ४२६^०.
सुरा-माज-स्थ>)स्था-स्था:
विथ ५१,२३^०.
सुरा-मत्त-हत्त-नस्म शंभ १६५
सुरा-मन्थ-न्यम् अशी २४,७.
सुरा-मूय-सुरीप-धात् काथ २७८:
४.
सुरा-मूय-सुरीप-रेतः-कुणप-र-क-
काला (वा-आ)दि-रृष्ट-
-धानाम् काथ २७८:२.
सुरा-लक्षण-मत्त-वानाम् शंभ
४०५.
सुरा-लज्जुन पलाण्डु-गृजनक-मांस-
-स्तानि शंभ ३४०.
सुरा-लित्त-सम् वीथी १७, २७:
११.
सुरा-वत् आपथी १९, ७,७; हिथी
२३,१,२६.
सुरा वत्-वन्त्म् काथी १९, ३,
११; आपथी १९, ८, ९; माथी
५,२,११,२३; वाथी.
सुरा(रा-अ)पथेप-वम् हिथी
१३,८,३३; ३५.
सुरा शेष-वम् आपथी^१ १९, २,
७,४, २; माथी ५,२,४, ३१;
-वेपु काथी १३, ४, ७; वाथी
५,४,१४.
सुरा-सम^०-मम् वैथ ३,५,१०.
सुरा (रा-आ)सव^०-वम् अथ
७०^३,७,६; ७१,९,२; -ने अथ
७०^३,७,१२; ७१,१०,५.

सुरा-सीधु-मत्त-पान-ने काथ
२७४:३.
सुरा-सुत्त^०-नस्म आथी ३,९,४.
सुरा-सोम^१-मः वीथी १७, ३१:
९,११; -मत्त वीथी १७,२३:
१०^१; २३, १६:१३; -मैत
काथी १४,१३,४; १५,१५,५.
सुरा-सोम^१-मा ३: काथी १९, १,
१८^१; -मात् माथी ५,२,४,३;
-मेम्य: काथी १९, ३, ७^१.
सुरासोम-देवता->व(स्थ>)
था-था सुत्त२,२६३,३६७^०;
३६८.
सुरासोम-विकथिन्-विण:
काथी १९, १, १८; -थंविन्
काथी १९,१,१८; माथी ५, २,
४,३.
सुरा-वत्-वे अथ ६४,८,६.
सुरा(रा-अ)व्येप-वम् वीथी ११,
५:८; १३.
सुरा(रा-अ)सम^१-नेव गोथ २,
१,९.
सुरा(रा-अ)पथाम-मान् वाथी
३,१ १,१८; २,२९; ४४.
सुरासुर^०-नः वीथीप ४७:२.
सुरा-मह-प्रम. सुरा-६.
सुराजन्-पाग ५,१,१२४^०, पावा
५,४,६९; -अ: हिथ १,८,२६.
सुराथी-(>सौराजक-पा.)
पाग ४२, १२७.
सौराज्य-न्ये पा ५,१, १२४; ८,
२,१४.
सुराणाम्,सुरान्^० हिथी १३,८,१६.

a) उप. = २थान-। b) उप. <√पा (पाने)। c) श्री इति पाठः? वरि. शोः (द्र. सप. वाप २०,४४)। d) उप. = १थान-। e) परतरं पथे। f) सप. 'वावरो' <> राशो <> 'रोचो' इति पथे। g) समाहारे द्वय. (द्र. मेधातिथिः [मनु ११,१५])। उप. <भा/सु (अभिपथे)। h) उप. = १मुत्त-। i) मत्तौ. क्त.। j) द्वय.। k) 'पत्था इति पाठः? वरि. शोः (द्र. पूर्णात्म्)। l) उप. = १३४५-। m) स्य१.। n) द्व. पागम.। o) सुराणाम्, सुराण्य. इति शेषः (द्र. सप. आपथी १९,२,१८)।

सुरावस्- -धसन् आश्री ७, ४, ३; ८, ६, १६; वैताश्री; -धसे आपश्री २, २०, ५३; वीश्री १, १७: १३; १६; माश्री; -धा: आश्री २, १०, १६.

सुराव- प्रच. सुरा- द.

सुरावम्- -मन् आश्री ३, १, ३; शाश्री १५, १५, ८; काश्री १२, ६, २०; आपश्री.

सुरावन्- -म्न: आश्री ३, १, ३; आपश्री १२, २, १८; वीश्री १७, ३५: १४; माश्री ५, २, ४, २७; वैश्री ११, ४: १२; -म्नम् आश्री ३, १, ३; आपश्री १२, २, १८; वीश्री १७, ३५: १२; माश्री ५, २, ४, २६; ४२; वैश्री ११, ४: १०.

सुरावन्ध- प्रच. सुरा- द.

सुरावमिन- -मिन् वीश्री ७: २.

सुरावर्चन- १सुर- द.

सुराववणभय- प्रच. -सुरा द.

सुराव्युत्था- -व्या: वीश्री १, १, २१९; -०धा^६ वीश्री १३, ३८: १.

सुराव्युत्था- -व्या: जे २, १: २०; -व्यान् अण ५०, १, ५; -व्याणम् अण ५१, १, ४.

सुराव्युत्थित्व-सौवीर-मालव- -धा: अण ५६, १, ७.

सुराव्युत्थित्व-का- -का वीश्री २२८; माश्री १०, १; माश्री २, ७०; माश्री २, ४, ९.

सुरावुर- प्रच. १सुर- द.

सुराव(वम>)वमा- -वमे वा ८,

१११६.

सुराव्युत्- -व्युत् आश्री २, १, १४; ७, ६, ३; शाश्री; वा १, ७६; -व्युत् आश्री ७, ६, ३; शाश्री ५, १, ६.

सुराव्युत्पा- -फि २; -फिण् आश्री ८, १६, ३; आपश्री २, १०, ४; वीश्री १, १४: १; माश्री; -वा^७ कौस् १२०, १; १२६, ५; -पा: विण ७८, ३६^८; -वान् विण ७८, ४०^९; -०वे द्विषो ६, ६, ५१.

सुराव्युत्त- -हृत् यौषि २, ४, ७.

सुराव्युत्तु- -फिण् आश्री ५, १८, ५; ७, ४, ३; ५, १५; शाश्री; -जो: शाश्री १७, ५६, १२.

सुराव्युत्त(म>)मा- -मवा वा ८, २०

सुराव्युत्त(व(सं)>)वा- -०णं आपश्री ७, १०, ३; वीश्री ३, १८: २४; माश्री.

सुराव्युत्त(व(सं)>)वा- -स्वा: वीश्री ७: १.

सुराव्युत्त- -वम् निस् ८, २: ५१.

सुराव्युत्त-कौट- -कौट आश्री ९, ३, ६; काश्री ३, ६, २५.

सुराव्युत्त-वावृ- ३, ८.

सुराव्युत्त- -तसम् माश्री ७०; -वाम आश्री ८, १९, १; आपश्री ७, १३, १^१; वीश्री ३, २०: १^१; ६, १३: १२; २७, १४: ६^१; द्विषो ६, ४, १^१; आपमं २, ११, ३१.

सुराव्युत्त-व्या- -व्या काश्री २३, ३, १; आपश्री २२, १९, १; द्विषो १७, ७, १०.

सुराव्युत्त- प्रच. १सुर- द.

सुरेश्वरी- -र्या अण ३५, १, १२.

सुरेश्वरी-मार्जन- -नाम् अण ३५, २, १०.

सुरोचन- -माव वा १, ७.

सुरोच(न>)ना- -ने वा ८, ११.

सुरोच्छेप- प्रच. सुरा- द.

सुरोत्तम- १सुर- द.

सुरोत्तम- सुरा- द.

सुरोदिका- (> सौरोदिक- वा.)

पाग ७, १, ११२.

सुरोहिणी- -नी आपश्री ६, ३, ८.

सुरोहितिका- (> सौरोदिक- वा.) पाग ७, १, ११२.

सुरल- (> सुरल-वत्-, सुलिन्- वा.)

पाग ५, २, १३६.

सुरलक्ष- (> सौलक्षिक- वा.) पाग ७, २, ६०.

सुरलक्ष(ग>)णा- -णा: अण २१, १, ४

सुरलक्षभा- -वा ७, १, ६८; -नाम्

माश्री २, ५०^२.

सुरलक्ष(म>)मा- -मा आण ३, ४,

४; वीश्री २, ५, ३; शाश्री ७, १०,

३; अण ४३, ४, २६.

सुरलक्ष- वा ७, १, ६८; -माव अण

१, ४३, ४.

सुरलोभिन्- (> सौलोभ- वा.) पाग ७, १,

१०५; २, १११.

सुरलोक- -क: आपश्री ५, २९, ११;

वीश्री ३, ३: १७; माश्री.

सुरलखन- (> सौलो^३ वा.) पाग ७,

१, ११२.

सुरलोभिन्- (> सौलोभ- वा.)

पाग ७, १, १११.

सुरलोक- -क: आपश्री ५, २९, ११;

वीश्री ३, ३: १७; माश्री.

सुरलखन- (> सौलो^३ वा.) पाग ७,

१, ११२.

सुरलोभिन्- (> सौलोभ- वा.)

पाग ७, १, १११.

सुरलोक- -क: आपश्री ५, २९, ११;

वीश्री ३, ३: १७; माश्री.

सुरलखन- (> सौलो^३ वा.) पाग ७,

१, ११२.

१) वेप १ द. । २) व्यप. । ३) = देश-विशेष- । ४) = रघु- । ५) विण, नाण. । ६) रामे जातये वा प्र. । ७) सरू इति ऋच. (द्व. संस्कृत्युः टि.) । ८) रघुसु इति जीवं. । ९) सुराव्युत् इति जीवं. । १०) = साम-विशेष- । ११) पाने. वेप १ सुरेण: वे १, ६, ४, ४ टि. द. । १२) = जोषण-विशेष- । १३) गण. । १४) अण. वृत्तिरि दृत्. । १५) = प्रत्य-विशेष- । १६) पाणम. । १७) वत्. । १८) = शक्ति-विशेष- । १९) सुरोभिन्- इति पाद्य. । २०) द्व. पाणम. ।

सु-लो(मन् >)मा^१- भाम् वृदे ६, १०४.

सुलोमी- -०मि वैष २,२:२.

सुलोहेन्- (>सौलोह- पा.) पाप ४,१,१०५.

सुवका- पाठमी २,२,१०.

सुवचप्र- अत्रेण पाशि २६, माशि १५,५, माशि २,८,११.

सुवचप्र^२- अत्रस्य माशि १, ६.

सुवचस्- पाठ ४, २२७, पाप ४, १,१२३^३.

सौवक्षसेव- पा ४,१,१२३.

सु वचिन्- -०अत्रि लाम् ७, १०, १२^४, निस् ७,११:९

सुवन- ✓डु (यथा) द.

सु वपुस्- -वुप अण ६८,१,४१.

सु-वसवै^५ जै १,११:१३^६.

सुवर्^(१) णि^७ आपथी १,१८,४×४, १३, २२, १^८, १४, ३०, १^९×४, १७, २१,७, वीथी, आपमं २,१,८^{१०}, दिष्ट १,१०, २^१, २१, ५^१, २, २, १^{१२}, ६, १२^{१३} [स्वर यत्]

सुवर्^(२) णि^७ आपथी १,१८, ४×४, १३, २२, १^८, १४, ३०, वीथी ६ २९: १९, वैथी १४, १३ ६, दिथी.

सुवर् दा- णि^७ दा: दिथी ११, ६, १०

सुवर् दश्- दशम् आपथी १७, ८, ४, १९, २२, १६, दिथी २२, ४, १७.

सुवर् द-धाम^८ -मा आपथी ११, १५, १, वीथी ६, २९:

१०, वैथी १४, १३:७, दिथी.

सुवर्-वत्- -वात् वैष १,१८:१९^९.

सुवर्-वाह^{१०} - -०वाद् वीथी ८, १२:२९^{१०}.

सुवर्-विद्^{११} - -विद् आपथी १३, ८, ९, वीथी १४, ११-२४×४,

वैथी १६, १०:११, -विद्म आपथी १,१२, १, ५, १०, ४,

भाथी १,१३, ३, दिथी; -विदा वैथी १८, १:३७, -विदे वीथी १०, ५०:१४.

सुवर्-वा (< सा)^{१२} - -वात् वीथी १८, ५ ११, तैत्रा ५, १०.

सुवर्-वत्^{१३} - -वत् वीथी २, १, ५, १

सुवर्^(१४) णि^७ - णि^७ णि^७ आपथी ५, १३, ४, ६, ९, ८, वीथी २, १७:

११^{१५}, वाधुथी, -णम् णि^७ आपथी १०, ९, ४, २२, १६, १०, वीथी,

-णस्य वीथी १७, १३:७^{१६}, वाधुथी ४, ६४^{१७}:५, दिथी ६,

१, ६, -णान् वीथी १२, १४ १३, -णानि आपथी २०, १२,

१०, वीथी १५, २२:९, दिथी, -णो णि^७ आपथी ४ ५, ५^१, ७, ३,

५, ८, ९, १८, १^१, वीथी

सुवर्-काम- -मा आपथी ३, १७, ४, वीथी १३, २७:१×४,

दिथी, -मत् वाधुथी ४, १०:१४, -मस्य वीथी १७,

१३-५, २६, २३:१८, -मा आपथी २२, २२, २^१.

सुवर्^(१५) णि^७ - -वात् वाधुथी ४, १०:१२^{१५}.

सुवर्^(१६) णि^७ - -णम् वीथी १६, २९:७, -णानि तैत्रा ७, १०^{१६}.

सुवर्चल (> सौवर्चलीय- पा.) पाप ४, २, ८०.

सुवर्चल (>)ला^{१७} - -काम वैष ३, १४:५, संघ ३२६, वाप २७, ११.

सौवर्चल^{१८} - -कम् कौत् ३६, १२.

सुवर्चल^{१९} - -वैत् पाप ४, १६^{१९}.

सुवर्चल^{२०} - -वैत् कौत् ८९, १३^{२०}, -णानि आपथी ६, १९, ७, १६,

१६, ४, २२, १२, ५; वीथी, कौत् ३, ४, ५^{२१}.

सौवर्चल^{२२} - -साप माप १, २, १२: वाप ९, ९.

सुवर्^(२३) णि^७ - पाप २, ४, २१:४, १, ८६, २, ९-०^{२३}; ५, १, १६, २,

६१^{२४}, -णि^७ आपथी १, १४, १२^{२५}, भाथी १, ११, १^{२६},

वाधुथी ३, ७६:२५, २१; विप ४, १^{२७}, -णम् आपथी १७,

२४, ७^{२८}, २७, १; वीथी ९, १४:१५, १२, १०:१५×४,

वाधुथी ३, ७०:१४; ७६-२१×४, वैथी, -णस्य लप ४८, ९१;

७०^{२९}, १९, ४, -णानि आपथी ३, १३, ५^{३०}, भाथी ३, १२, ३^{३१},

वाधुथी, दिथी २, ६, ३-१^{३२}, काशु ७, २८, -णान् वीथी

a) वस । b) वप । c) गण । d) सपा. माप १, २१, १ स्वस्तये इति पाठे । e) वैष १ द. । f) सपा. वाठ ४, १३ क ३, ११ विष्णुः इति पाठे । g) पाठे. वैष २, १४ं ऋणुः तैत्रा २, ७, १७, ३ टि. द. । h) सपा. काशु १, २४, ८ स्व इति पाठे । i) पाठे. वैष २, १८ं. सुवर्णे तैत्रा ३, ७, ६, ५ टि. द. । j) पाठे. वैष १ ते ४, १, १ टि. द. । k) = ऋषि विरोध- । l) = द्रव्य विरोध- इति अण., = सुवर्चल- इति दारिद्र । m) सपा. माप १, २१, ६ जैप १, ११:१८ स्वस्तये इति पाठे । n) पाठे. वैष १ सुमेघा मा ३, ४१ टि. द. । o) भावे ऋण प्र । p) विप (कमण्डलुः, शीपवाप- मृत्वी- प्रथ.), नाप. (हिरण्य-) । q) ४ २६६७ j द. । r) = परिमाण-विरोध- । s) पाठे. वैष १ सुवर्णेः काठ ३१, १४ टि. द. ।

१५, १५ : ४; वाधुश्री ३, ७६ :
 २४; विध ५, ९८; १८२; -णानि
 वीश्री ११, १ ३; ९ : १४४;
 वाधुश्री ३, ७६ : २३; -णै शंध
 २०७; विध ९९, १०; -णैल
 वीश्री १५, २१ : ७; ३२ : १२;
 वीधि; -णैः वीश्री १५, २८ :
 १४४४; माश्री २, ८, ८०.
 सौवर्णर्ण- वा छ, १, ८६; ५,
 २, ६१; -णैः वीश्री १४, ३२,
 ५; वीश्री; -णैम् काश्री १२, ४,
 ११; २०, १, २२; वीश्री; -णैः
 वीश्री २२, १९ : १०; २४,
 १४ : ८; द्विशी १४, ३, २२;
 वृदे ५, ३५; -णैम् काश्री २०,
 ५, १६; वीश्री; -णैनाम्
 वीश्री १५, १५ : ५; माश्री
 ६, २, ४, १; -णैनि वीश्री
 १५, १५ : १०; १२; १५४४;
 -णैमिः वीश्री १५, २० : १४;
 -णैम् वध ३, १, १००; -णै
 वीश्री १२६, १; वध ६८, २, ३;
 -णैव काश्री २०, ५, २; वीश्री,
 -णै वीश्री १५, २९ : २१; २३,
 १८ : ९; वध ७, १, १; -णै वध
 ३९, १, १०.
 सौवर्ण- वी वीश्री ९,
 ४, ९; -णैमिः वीश्री २०,
 १८, ५.
 सौवर्णकलश- शो वध ३५,
 २, ७.
 सौवर्ण निष्क- ष्कम्
 वीश्री २०, १३, ४.
 सौवर्णपण- ष्कम् सु १, २.
 सौवर्णमय- ये वध छ,
 २, ९.

सौवर्णरजत-ताम्र-मय-
 -यानि वैध ३, ३, १०.
 सौवर्णराजत- -तम् वध ८,
 १, ५; -ताम्राम शंध ११६ :
 ८०; विध ७९, २४; -तै वाश्री
 ३, ४, २, १३; -तैः वध ५, १, २;
 २७, १, १; -तौ माश्री छ, २, २.
 सौवर्णराजता(त व) ष्क-
 मणिमय- -यानाम् विध २३, ७.
 सौवर्णराजतौ(त-औ) दुग्धर-
 कांश्य-मणिमय- -यानाम् वीधि
 २, ३, १९.
 सौवर्ण(वं अ) लङ्कार- -राः
 काश्री २०, ५, १२.
 सौवर्णा(रुं-अ) सि- -सिः
 वीश्री २० ७, ३.
 सुवर्णकर- -रम् विध ९, ८.
 सुवर्णकार- -रा वैध ३, १४, १.
 सुवर्णकार-कार- -राणाम्
 विध १०, ४.
 सुवर्णकर- -रुतः वीश्री १५, १५ :
 ८.
 सुवर्णकृष्णल- -रुम् विध ५०, २९.
 सुवर्णगर्भ- -र्भम् वैध ६, ३; ५; ७.
 सुवर्णग्रन्थि- -न्थिः वाधुश्री ३,
 ७६ : २६; -न्थीन् वीश्री १५,
 १५ : ११.
 सुवर्णचू(टा) ष्क- -काय वध
 ३६, १, १३१.
 सुवर्णसैजस- -जाः वध ११, २, ५.
 सुवर्णस्तर- -रवः वाधुश्री ३, ७६;
 २९; -रुः वाधुश्री ३, ७६ : ३१;
 -रुम् वीश्री १५, १५ : २; -रुन्
 वीश्री १५, १५ : ४.
 सुवर्णदण्ड- -ण्डानि वीश्री १५,
 १५ : १६.

सुवर्णदान- -नेन विध ९२, १३.
 सुवर्णना(भि) ष्क- -मः वध
 २, १९, ३; द्विध २ ५, ७५; -मम्
 वाध २८, २०; विध ९०, १.
 सुवर्णनामि- -मिम् विध ८७, १.
 सुवर्णनिर्वाण- -णानि वाधुश्री ३,
 ७६ : २३.
 सुवर्णनिष्क- -ष्कम् वध छ, २, ५.
 सुवर्णपशुदान- -वाहाणमोलव-
 -नानि वैध ६, ५ : ७.
 सुवर्णपशुभूषण(मि-भा) दि-
 -धीम् वैध ६, ७ : १३.
 सुवर्णपु(ल) ष्क- -ष्यो वध
 १८, १, १६.
 सुवर्णपूर्ण- -र्णेषु वध ६५, १, ६.
 सुवर्णप्रादान- -मम् वाध २, ८.
 सुवर्णमणिमुक्त- -कानि वध ६८,
 ५, १२.
 सुवर्णमणि मुक्ताफल-स्तटिक-पद्मा-
 क्षे(क्ष-द) म्द्राक्ष-पुत्रजीवक-
 -कानाम् शंध १०७.
 सुवर्णमय- -यैः वीश्री १५, २३;
 १२.
 सुवर्णमयी- -यीम् वध १०, १,
 ८.
 सुवर्णमाला-पताक- -कैः वध
 १८, १, ९.
 सुवर्णभाषक- -कम् विध ५, १६.
 सुवर्णभुत- -तम् विध ९०, १५.
 सुवर्णर- -रम् वध विध २, ५, १ :
 २१, वीध ३, ७, १६.
 सुवर्णरजत- -ताम्राम् वीश्री १०,
 ५० : २०; ११, ७ : ९४४; वीश्री
 १९, ६ : १२३; द्विशी; -तै वीश्री
 १५, १५ : ९; ३८ : ७; वाधुश्री
 ३, ७० : ३; ७६ : २१; -तौ

०) पामे. वै. १ सुवर्ण. वाठ ३१, १४ टि. द. १ ०) विध. (ज्ञाननी) वीता-)। ८) वध. । d) = रणै-नार- ।
 e) विभाषण वमालान्तः वध् द. (पावा ५, ४, ७५) । f) परस्परं पामे. । g) = शोधय विधेय- h) वध. > इव. ।

बौध्दी २, ५ : ७; ६ : ११ x x.
 सुवर्ण-रत्न-मुष्ण (क-आ) दि-
 -दीनि वैद्य ३, ११ : १५.
 सुवर्ण-रत्न-यस्त्र- -आणाम् विष ५.
 ८१.
 सुवर्ण-रत्न-सामुद्र- -द्राः आपथौ
 २०, १५, ९.
 सुवर्ण-रत्न-धेनु- -नुम् अप २, ३, २.
 सुवर्ण-रत्ना (ज-घ) पहरण- -जे शंभ
 ३२८.
 सुवर्ण-ना (स्ता >) स्त- -स्तान्
 बौध्दी १५, १५ : १४; बाध्थी
 ३, ७६ : २५.
 सुवर्ण-रेतस्- -त्ताः वा १४, २९.
 सुवर्ण-वर्ण- -णः अप २०, २, ८;
 -णम् अप १, ६, २.
 सुवर्णवर्णत्रास्रोत्क- -स्त्रैः शंभ
 १८३.
 सुवर्ण-शकल- -शानि वैश्री १०,
 ७ : ४.
 सुवर्ण-शङ्ख- -ङ्खनि बौध्दी १५,
 १५ : १३.
 सुवर्ण-शतमान- -नम् काथी
 २६, ४, ६; -नेन काथी २६, ३,
 १०.
 सुवर्णशतमानिक- -कः माथी
 १, ६, ५, ११.
 सुवर्ण-शतमान- -नयोः पावा ५,
 १, २९.
 सुवर्णशतव- -व्यः बाध्थी ३,
 ७६ : २५.
 सुवर्ण-शुक्र- -क्रम् विष ८७, १.
 सुवर्णशुद्धी- -द्धी अप ९, ३, १;
 -द्धीम् विष ९२, ८.

सुवर्ण-सय (न >) गो- -नी बौध्दी
 १८, ४५ : २४.
 सुवर्ण-स्तेन- -नः शंभ ३८४.
 सुवर्ण-स्तेय- -य-हृत्- -हृत् शंभ
 ४४१; ४५४; विष ५२, १; ५५, ५.
 सुवर्ण-स्तेय-सम्- -सम् विष
 ३६, ३.
 सुवर्ण-स्तेयिन्- -नी शंभ ३७६;
 सुव ५५.
 सुवर्ण-स्तेय- -यम् बौध् ३, ५, ६;
 ६, ९; १८; विष ४८, २२.
 सुवर्ण-हरण- -णम् काय २७५ : ३.
 सुवर्ण-हारिन्- -नी विष ४५, ५.
 सुवर्ण-हिरण्य-प्राग्नि-यत्न-लोह-रूमि-
 नाण्ड- -न्दैः वीष्ट २, ११, ४४.
 सुवर्णा (ई-अ) लोहि (त >) वा-
 -तया पाठ १, १६, ४; शंभ १६.
 सुवर्णा (ई-आभा >) न- -नः अप
 ५०, ६, १.
 सुवर्णा (ई-अ) मिरण्डव- -नम्
 दिष्ट १, १०, ६.
 सुवर्णा (ई-अ) म्रस- -नः विष
 २३, १७.
 सुवर्णा (ई-अ) र्ध- -धम् काष्ठ ७, २८.
 सुवर्णा (ई-अ) र्ध- -ने विष ९,
 १०.
 सुवर्णा (ई-अ) र्ध- -नम् बौध्दी
 २७, १९ : ५; ४१ : ५.
 सुवर्णा (ई-अ) र्ध- -नम् आश्रित
 १, ३, १ : १८.
 सुवर्णा- -वा ५०, १, ६६.
 सुवर्णा (> णं-स- वा.) पाग ४, २,
 ८०.

सुवर्णक- (> सौवर्णकान-वा.)
 पाग ४, २, ८०.
 सुवर्ण-कर- -प्रष्ट. सुवर्ण- -द.
 सु-वर्ति- > र्ति-स्नेह-संपुष्ट- -नम्
 अप ७, १, ४.
 सुवर्-दा- सुवर्-द.
 सु-वर्षयितृ- -प्रा वा ३, ११.
 सुवर्-भासु- -सुः बाध्थी ४, ८८ : १
 सुवर्-धत्- -प्रष्ट. सुवर्-वा-सुवर्-द.
 सु-वर्षा- -र्षाः बौध् ४, ४, १०;
 शांभ ४, १८, ४.
 सु-वसन्त- -न्तः बौध् ४, ४, १०;
 शांभ ४, १८, ४; पाठ ३, २, १२.
 सुवस्तु- (> सौवस्तन-)
 सु-वाच्- -वाक् माथी ११, ६,
 १२; बौध्दी ६, २५ : ३; माथी;
 -वाक् माथी २, १, ४, ११;
 -वाचः बाथी ६, ३, १; बाथी
 ९, ५, २; -वाचः वा ८, १२, ४.
 सुवान- ✓ सु (समिपरे) द.
 सु-वासस्- -स्ताः माथी ३, १, ९;
 बाथी ५, १, ५, ४; माथी ५, ३, ८,
 १०; बाथ १, २०, ९; पाठ; वा
 १, १९, ४.
 सु-वा (स >) सा- -सायान् अप
 ९, १, ३.
 सुवास्तु- -पाग ४, २, ७७; -स्तु-
 -र्षवाः वा ४, १५, ४.
 सौवास्य- -वा ४, २, ७७.
 सु-विच्- -विचा बाथी १, १, ५, ५८;
 सु-विचित- -तः बाथी १२, ८, १४.
 १९, १५, ९; दिशौ २३, ३, २९;
 -तम् बौध्दी ६, १४ : ४; बाथ
 २, ११, ३६; दिश २, ४, १९६.

a) वस. । b) = पुष्करिणी-विशेष. । c) उप. = नक्षत्र. । d) तप. बौध्दी १, १३, ३६ स्वर्ण-
 पानम् इति पथि. । e) रश्मि-शत- इत्यनेन सन्वायता द. । f) पाठे. ४ २१९० ४ द. । g) सुवस्तु-
 इति (पथे) भाष्ये. पाठि. च । h) वैद्य १ द. । i) पथि. वैद्य १ सुवाक् मै १, ३, ५ टि. द. । j) उप.
 = शवाच- । k) वा, क्वि, ।

*सुवित- -स श्रमा २,४४, -तम्
 आपथी ५,१,७, कौष्ट ४,४,९^३,
 -ता बीथी ८,५ २१, गा १२,
 २८^६, -ताम बीथी ९, १४
 २, ४, ७, ऋषा ८, ४४, सुभा,
 या १६, १५^६, -ते शाथी ५,
 ८, २^०, आपथी ७, १७, २,
 बीथी, माथी १, ६, ४, २१^७,
 दाथी १४ २,३^०, लाथी ५, ६,
 ६^०, कौष्ट १,२,३^०, वाष्ट १,६,
 ५^०, निष ४,१, या ४,१७^०

सु विद्व-पाठ ३ १०८, -प्र आथी
 २ १८, ३^०, बीथी १०, ५१
 ११^१, निष ४,३, या ६,१४^६,
 -प्रम् या ७ ९^६, -त्रान् आथी
 २,१९ २२, ५ २०,६, बीथी ३,
 ११ २३, १७, ३६ १२, तैत्र
 ९ २१, -त्रेभि या ६, १४^०,
 -त्रेभ्य आश्रि ३,५,४ ३^०
 बीथि १, ३ १३^०

सुविद्वि-त्रेभ्य या ७,११^०
 *सु विदान- न आपथी ९ ४,
 १७ बीथी १३ ४३ २०, हिथी
 १५,१ ८६

सु विद्व- डांस या १३,८^०
 *सु विप्र- प्र भासि ६१
 सु विप्रतिपिद्ध-रूप- पाणि निम्
 ६, १३ ११

सु विमङ्ग-प्रीव- व चन्दू ४ १३
 सु विभृषि(त>)ता- -तासु विष
 ९९,२१.

*सु विमुच्- सुचा शाथी १,१५,
 १७, काथी २ २,२१, आपथी ३,
 १३,१, बीथी

१सु-वीर,रा- पा ६,२,१२०, -न
 आथी २ ३,०७^३, ३, १२,१४,
 शाथी २, १३, २^६xx, काथी
 ९,१०,७^१, आपथी, बीथी १४,
 ८ २९^३, माथी ३, १, २८^१,
 हिथी^३ ६, ६,१९, १६, ५, १,
 आश्रि १,१,३ १७^०, सुभ १,
 ४५८^१, -नृम् आपथी १९,३,
 २, बीथी, माथी १,३ २,२१^३,
 वाथी^३ १,३,४, ३३, १४, -नृ
 आपथी ९, १७, १ हिथी १५,
 ७, २३^१, -नृरा शाथी ५, ९,
 १९, आपथी ५,१,७^०, २,४^०,
 १२,२२,८^१xx, बीथी ७,१३
 २^०, माथी, माथी २,४,१,१४^१,
 वैथी १५ २८ ७^१, हिथी ८ ७,
 १४^१, माथर, ८,४^०, नृना आथी
 २,५,१७^०, लपथी १६,१६,४^०,
 वैथी १८, १४ १६^०, आपम,
 शाष्ट ३,५,३^०, वीर १,५, ६^०,
 -रान् आश्रि ३, ७ : ७^१,
 -नृनाय आपथी २, १४,१३,

भाथी २, १४, ६, माथी,
 -नृनायः बीथी ३, ८ ११^१,
 वाथी १,३,२, २०, -रे माथी
 ६, २, ३, ८, -रो वाप ३७,
 ९,३^१

सुवीरता- -तायै बीथी २५, २०
 २३

*सुवीर-वट- न्वर आपथी ६,२९,
 १, हिथी ३,८, १४, गाष्ट २,
 ४ १२

२सु वीर- > सौवीर(वप्रा)- पाय
 ४,२,५४, -रान् आपथी २२,
 ६, १८, बीथी १८, १३ : १,
 हिथी १७, २, ६२, बीथ १,१,
 ३०, -रेष्टु पा ४ १, १४८
 सौवीर गोर- -त्रेभ्य पावा ४,
 १, ९०

सौवीर-भक्त- पा ४,२,५४
 सौवीर साल्व-प्राच्- -प्राक्षु पा
 ४,२,७६

सौवीरा(र-भ)जन- -नम्
 वप्र २,८,५
 सौवीरा(र वा)दि- दि अप
 २३ ५३

*सुवीरिण- -०णं, -ण हिर २,
 ७,२^१

सु वीर्य,र्या- पा ६, २,१२०, -यं
 पाष्ट ३,२, ७^१, -नृनय आथी

a) वैर १ द । b) पामे वैर १ सुवित्तम् तै ५ ७, २, ४ टि द । c) पामे वैष १ सुवित्ते वा
 ५,२,३ टि द । d) *दा इति पाठ १ यनि शोष (इ तै ४,३,१३,२) । e) पामे वैष १ सुविद्विप्रवेभ्य
 या १० १७ ३ टि द । f) गस उप <√विद् (शाने) । g) प्रात >वस । h) पामे वैष १ सुवीर
 मा ३ ३७ टि द । i) पामे वैष १ सुवीर मा ७ १३ टि द । j) पामे वैष १ सुवरीक कठ ३५ १८
 टि द । k) पामे वैष २, ३ख सुवीर्येम् तैमा ३,७,५ १३^१ टि द । l) *रा इति पाठ १ यनि शोष (इ.
 आपथी) । m) पामे वैष १ सुवीरस शी ३, १२, ६ टि द । n) पामे वैष १ सुवीरा शी ३ १०, ५ टि
 द । o) सपा दिष्ट १ ९९, २ सुवेवाट् इति, गाष्ट १, १४, ६ सुवेवा इति च पामे । p) पामे वैष १ सुवी
 रान् तै ५ ७, २, १ टि द । q) पामे वैष १ सुवीरस तै १, ५, ५, ४ टि द । r) = गोर,
 नृनद, रायिण- । s) = बालपद-विशेष- । t) *ण इति पाठ, १ यनि शोष (इ आपम पामे) ।
 u) पामे वृ २९७० १ द ।

५, १६, २^० x x; शोभी; आपथी
 २, २०, ५^०; २०, २०, १९;
 -पर्वत्य शोभी ६, ७, ४; वीथी
 १४, ८ : १५; द्विथी; -यांम् पाण
 ३, २, २^१; -पर्व्यां शोभी ४,
 ८, १; आपथी ६, ५, ७ x x; वीथी;
 -येण शोभी २, १२, १०^१.
 सुवीर्य-२२- नवाम वीथी १४,
 ११ : २८.
 सु-वृद्धि- -क्तिभिः निम् ८, १ :
 १९; या २, २४^१; -क्ति
 माथी ५, २, ६, १९; आनिप २,
 ५, १० : ८.
 सु-वृत्- -वृत्तमा आथी १, १०,
 ८^१; वीथी २, २८, ३^१; आपथी
 १, ६, ४^१; काण २६, ४^१; माण
 १, १३, ६^१; या १२, ८^१.
 सु-वृत्- -वृत्तमा आथी १६ १२, ११.
 सु-वृत्त, ता- -तः वैप २, ५, २^१;
 -वृत्त वैथी ११, ८ : १३;
 वाप ६, ४४; -ता वैथी ११,
 ९ : ८; -ताम् आनिप ३, ११,
 १ : ११.
 सु-वृत्ति- -वृत्ते निम् १०, ८ : २०.
 सु-वृष्ट- -वृष्टः आपथी २, ६, १५^१;
 आनिप १, १, ४ : ११^१; -वृष्टा
 या ३, ११^१.
 सु-वृष्ट- -वृष्ट वीथी ३, १७ : २३^१.
 सु-वृष्टि- -वृष्टे अप ६१, १, ६; -वृष्टि
 अप ५२, १, ११; १३; १४; ६२,
 ३, ६; ४, ४.

सुवेदस्- -दाः शम् २, १०, १४७;
 साय १, ३७१.
 सु-वेप, पा- वाः अप ६८, १, ३६;
 -वे विप २९, १८^१.
 सु-व्यक्त- -क्तम् आनिप २, ५, १३^१;
 जण २, ९ : २.
 सुव्यक्ता(क-अ)द्गुलि-मोक्षण-
 -वृत्तमा यासि १, ५४.
 सुव्यक्ता(क-अ)द्गुलि-रहित-
 -वृत्तमा यासि २, ९; यासि १, ५१.
 सु-व्यवस्थित- -वृत्तमा यासि २६;
 यासि १५, ५.
 सु-व्रत, ता- -वृत्त अप ६१, १, १;
 -वृत्तमा आथी ८, १४, १८;
 द्विथी ११, ५, ७^१; -वृत्तमा
 आथी २, १, १९; ३, ८, १; ४,
 ३, ३; शोभी २, २, १४; -वृत्तमा
 वैप २, ५, २.
 सु-शकुम्- -वृत्तमा या १, २६, ३^१.
 सु-शामि, मो- -मि आथी ३, १;
 वीथी ५, १७, १०; वीथी १,
 ६ : १७; काण ३, ५, ७; वीथी;
 -मि शम् २, ५९.
 सु-शर- -तः या १२, ८.
 सु-शरण- -गणमा आथी १३, ७, ३^१.
 सु-शर्मन्- -पाठ ४, १५१; पाण ४, १,
 १६^१; २, ८०^१; -शर्म अप १, ११,
 ५^१; -शर्म वीथी १०, ६, २;
 आपथी; माथी २, ५, १, ४४;
 वैथी १६, १५ : ८^१; -शर्मनिम्
 आथी २, १, २९; वीथी २, ३,

१४.
 सौमिक- वा ४, २, ८०.
 सौमिकि- पाण ४, १, ९६.
 सु-शक्ति- -क्ति आथी ३, ८, १^१.
 सु-शान्त- -वृत्तमा वीथी ७२, १०.
 सु-शिक्ष- -वृत्तमा वीथी ३, ५२; १;
 या ६, १७; -शिक्षः निप ४, ३;
 -वृत्तमा या ६, १७.
 सु-शिक्ष- -वृत्तमा शम् १४,
 ४^१.
 सु-शोभ- -वृत्तमा यासि १३, ७^१.
 सु-शीर्यतम- -मः अप्राय ४, ४.
 सु-शुक्र-धी- -धीः अप्राय ३, ३^१.
 सु-शुद्ध-दान्त- -वृत्ते विप २९, १८.
 सु-शुभ->आ- -आम् विप १, ३, ७.
 सु-श्रुत, ता- -वृत्तमा आपथी १, १३,
 १०; ६, ६, १; -वृत्तमा आपथी
 १, २५, ११; -वृत्तमा आपथी ७,
 २०, ४^१; काठवी ५२^१; वीथी
 १०, १६; १^१; द्विथी ४, ४, ३३^१;
 वीथी ४४, ४०; -वृत्तमा माथी ३,
 १, २२.
 सु-शेव, वा- -वृत्तमा आपथी ५, १३,
 ८; द्विथी १, ४, २२; -वृत्तमा वीथी
 १३, १८, ६; वीथी ३, ८, २;
 आपथी; वा १०, १७^१; -वृत्तमा
 आथी ८, १, १८; आपथी
 २, १०, ६; वीथी; वाप २, २४^१;
 ३५^१; -वा आपथी २, २०, ५;
 वीथी १, १७ : १४; १६, २७ :
 १२-१४; माथी; माण १, १४,

a) वृ. आन. १ b) पाणे. वैप २, ३ सं. सुवीर्यं तैत्ति ३, ७, ५, १३^१ टि. द. १ c) पाणे. वैप १,
 २०११० द. १ d) पाणे. वैप १ सुवीर्यं वै ५, ७, २, १ टि. द. १ e) वैप १ द. १ f) पाणे. वैप १
 सुवृत्तम् वै ४, १२, ६ टि. द. १ g) पाणे. वैप १ सुवृत्तम् शम् १०, ८५, १० टि. द. १ h) C. सुवृत्तम् इति शेषः
 (वृ. शम् १, ८५, १) १) वृत्त. १) सुवृत्तः इति ०. १ k) पाणे. वैप १ सुवृत्तं वा २, ११, ५ टि. द. १
 l) वा. विधि. १ m) व्यप. १ n) शो इति जीर्ण. १ o) वृ. > वृत्त. १ p) अर्थः ? १ q) सप्तम् इति
 पाठः १ रवि. शेषः (वृ. माथी.) १ r) = सु-शक्ति- (वैप १ द.) १ s) वृ. आन. १ शम् इति ३३. १ १
 t) वैप १ निरुद्धयोः समावेशः द. १ u) पाणे. वैप १ सुवीर्यम् टि. द. १ v) पाणे. वृ २४२० i द. १

६^०; -वा: आपथी १०, १७, ११; बौथी २८, ९: ८, भाथी; आमिष्ट ३,७,२: १०^०; बौपि १, १७: ३०^०; -वा: द्विथी ६,७, ८; द्विष्ट १,२९, २^०; -वा: आमिष्ट ३,८,२: ३२; बौपि १, १५: ४०; -बौ बौष्ट ७६, २७.
 सु-शेवस^० -वा: आपथी ७, ६, ७; बौथी ४,३: १६; भाथी.
 सु-शोभन- -वम अथ १४, १, २; १९^१, २, ४; ३६, १५, १.
 सु-श-चन्द्र^० - -न्द्र काथी ७, ८, १; ८, १२, ५; आपथी १२, २१, १७; बौथी; -न्द्रम् वसू ६, ५.
 सु-श्रवस^० - -व: आपथं २, ५, १^१; धार: -वस: बौप १, ११, ३१^१; -वसम् बौथी १८, ५: १२; आपथं; -वसे^१ आमिष्ट १, २, २: १९; बौष्ट ३, ९, ५; माष्ट: -वा: आपथी ५, २, ४; आपथं २, ५, १^१; आष्ट.
 सु-सौधवस^० - -सम् आष्ट २, २२, २१; धार २, ४, २; काष्ट: -सेषु आपथं २, ११, २९.
 सु-सौधवस^० - -सम् लाथी ७, १, १; निष्ट ५, २: ९, ९, ११: २६; २७; -से लाथी ७, १, ४.
 सु-धी^० - -धिमम् आपथी ५, १०, ४; माथी १, ५, २, १४; वाथी.
 सु-श्रुत्^० - -श्रुत् आष्ट ३, ६, ७; धार २, ६, ११; माष्ट १, ९, २५; धार: -श्रुती आपथी ६, २०, २; धार:

१६, २.
 सु-श्रुत्^० -> सौश्रुत् -> सौश्रुत्-
 पथव^० - वाग ६, २, ३७.
 सु-श्रुति^० - -ति: अथ १६, २^१.
 सु-श्रो(धि>)णी^० - -थी सु ३, २.
 सु-श्रोको^० - -क काथी १९, ४, २०^१; -क: बौथी १२, १५: ६; -क^१ आपथी १८, १९, ६; बौथी १२, १५: ६; द्विथी १२, ६, ११; -क: वाथी ३, ३, ३, ३१; -काय बौष्ट २, २, ११^१.
 सु-श्रोवय^० - -वय आपथं २, १, ४; ५.
 सु-श्रोवय^० - -वय आपथ १, १७, १२^१; १३^१; काष्ट २, ३, १^१; धार २, १, १६^१; काष्ट ४०, ११^१; माष्ट १, २१, ६^१; वाष्ट ४, १६^१; जैष्ट १, ११: १५; १६; १८.
 सु-श्व - वा ५, ४, १२०.
 सु-श्वं(<सं)सद्^० - -सद्म आष्ट ५, ३०.
 सु-श्वं(<सं)द, द^० - -द: आपथी ४, ७, २; बौथी; -दा आपथी ४, ६, २; १८, १८, ६; बौथी; -दाम् आपथी १८, १८, ७^०; बौथी १२, १४: १९^०; वाथी.
 सु-श्वं(<सं)धि - वा, पाग ८, ३, ९८.
 सु-श्वं(<सं)म^० - वा, पाग २, १, १७.
 सु-श्वम - (>श्री-पा.) पाग ४, १, ४१.
 सु-श्वं(<सं)मा^० - वा, पाग ८, ३, ९८.
 सु-श्वं(<सं)मिद^० - -द: लाथी ६,

४, १३; साम २, ६९^०; -दम् काष्ट ५९, २.
 सु-श्वं(<सं)मिष्ट^० - -मिष्ट आथी ८, २, ३; शौथी १२, ११, ४; आपथी ५, ६, ३; बौथी.
 सु-श्वं(>श्री^०-पा.) पाग ४, १, ४१.
 सु-श्वं(<सं)मन्^० - वा, पाग ८, ३, ९८; -मणि वृष्टे ६, ६७; -मिष्टे वृष्टे ६, ६३; आष्ट ५, ५४.
 सु-श्वं - -मण्य आष्ट २, ८, २४.
 सु-श्वं(<सं)रथि^० - -थि: तैरा ६, १३; वा ९, १६^१.
 सु-श्वं, स्ता^१ विष्ट - -वम् आपथी २२, १९, १; वाथी २३, ३, १; द्विथी १७, ७, १०; आष्ट ५, २७.
 सु-श्वं(<सं)द^० - -दा आष्ट ९, ४९.
 सु-श्वं, रा^० - वा ५, २, १०७; -द: आपथी ९, २०, १; वैथी २०, ३९: २; -रम् विष्ट ६१, ९; वा ५, २७; -रा अथ २३, ३, ५; -रामि: काथी १६, २, ५; -राम् आपथी १६, १, ७; माथी ६, १, १, ८; वाथी; वा ५, २०^१; -राथी: बौष्ट १, ६, १७; -रेण आष्ट १४, ५.
 सु-श्वी(मा>)म^० - वा, पाग ८, ३, ९८; -मम् सु ३१, २.
 सु-श्वीक्षिति^० - -थि: द्विथी १६, ४, ३५^१.
 सु-श्वं(<सं)त्^० -> श्व-वस^० - -वम् माथी २, ३, २, ३^१.

- ०) पाथे, पृ २६८२ ० द. १ ०) पाथे, वैप १ सुतः आ २०, १८, ७ टि. द. १ ०) वैप १ द. १
 ०) धार. १ ०) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द. १ ०) साम-विशेष- १ ०) वस. १ ०) उप. <२४५- १
 ०) पाथे, वैप १ सुश्रेक मा २०, ४ टि. द. १ ०) परारं पाथे. १ ०) स्तार्थे वयः प्र. उरं. (वाश ४, १, ८५) १
 ०) परारं पाथे. १ ०) पाथे, वैप १ सुपुत्रम् मा १०, २६ टि. द. १ ०) उप. = २सम- दति पागम. १
 ०) वा. = धारि- १ द. पागम. १ ०) = इष्टनीक- इति पागम. १ ०) काथी, आष्ट पाठः १ ०) वय. इति पागम. १ ०) पाठः १ सुपुत्रिम् इति शेषः (द. वय. आपथी २१, १२, ३) १ ०) पाथे, वैप १ सुपुत्रम् टि. द. १

सु-पु(<सु)त^a- -ता सुप् ३, ११ ;
 २०; -तम् बौधो ७, ५: ८^b;
 -तस्य बौधो १७, १०: १८.
 सु-पु(<सु)त-> शोष^c- -या: अप
 ३३, ६, २.
 सुपुप्स- , सुपुप्सय- √स्वप् द.
 सु-पु(<सु)ष्ण^d- -ज्य: वा २, ६.
 सु-पु(<सु)स्र, स्रा^e- -श्र: वा
 आसि १, ५, २: ४१; वैश १,
 १८: ३; तैसा १३, १५; -स्रा
 वैश १, १४: ११^f.
 सुपुचस्- , चाप- √सु (आसिपवे) द.
 सु-पु(<सु)ति^g- -पा ८, ३, ८८.
 सु-पु(<सु)मा^h- -मा आसि २,
 १, ५: १९ⁱ.
 सु-पे(<से)चन^j- -नम् बाधो २, १,
 ५, १^k.
 सु-पेण^l- -णम् शंष ११६: ५१^m.
 सु-पे(<से)घ- -पा ८, ३, १८.
 सु-पोमाⁿ- -मया, -मा वा ९,
 २६^o.
 सु-पु(<सु)रीमर^p- -म > मा
 तैसा ३, १०; ६, १३; सुमा ३,
 १२९.
 सुपि^q अप ४८, १०९^r.
 सुपु सुपु टि. द.
 सु-पु(<सु)व- -वृत्त: चाप २: ६;
 ३०: ११.
 सु-पु(<सु)त, ता^s- -तम् बाधो
 ४, १, ७; बाधो २, १, ६; वासि
 २; -ता वा २, १५, २; अप १,
 १२, १०; वा ११, २९.
 सु-पु(<सु)ति^t- -ति. बाधो २,

८, ३^u; बाधो २, ४, ३^v; १२,
 ३, ११; श्रम: -तिम् बाधो २,
 १०, १४; ३, १२, २७; शोषो;
 या ६, १८^w; -ती आप्तम् २,
 ११, १०; आसि २, १, ५:
 १३; वा ११, ३१; -तो: बाधो
 ८, ११, ४; शोषो २, ५, ३; -न्या
 वा ११, ३१^x.
 सु-पु(<सु)म्- -पुन: शोषो ८,
 २३, १; शोषि २०; -पुमा
 शोषो ६, १०, ५.
 सु-पु(<सु)वा २, २५^y; बाधो १०, ६,
 ४; द्विषो ७, १, ५३^z; वा ५,
 १, १२१; ८, ३, ९८^{aa}.
 सौष्ठव- वा ५, १, १२१.
 सु-पु-नाधि^{ab}- -न्धिस् वा १४, ३२.
 सु-पु-वाण- √सु (आसिपवे) द.
 सु-पु(<सु)धि^{ac} > सुध्व(व)न्ती- -न्ती
 वा ८, ११; अया ३, ४, १.
 सु-पु(<सु)पय(त)न्ती-
 -न्ती वा ८, ११.
 सु-संयत- -नौ अप २, ५, १८; वासि
 १, १९; नासि १, ६, ३.
 सु-संवृत्, ता^{ad}- -ता: वाप ६, १;
 -ता: अप ६४, १, १.
 सु-संसद्- -स्य आप्तम् १, ८, ४;
 श्रमा ५, २५.
 सु-संस्कृत- -नम् अप २३, ५, २; ३३,
 ५, ७; विध २०, ७; कौषि ६६;
 -ता वा ६, ३३^{ae}; -तासि कौष
 ३, १२, १६.
 सु-संस्कृतो(त-व)रस्कृत-ता- -ना
 विध २५, ४.

सु-संस्कृत्य वैश ६७: १.
 सु-संहृष्ट- -हृ: वृ ६, १११.
 सु-सकथ- , सु-सकथि- वा ५, ४,
 १२१.
 सु-संचित- -नम् आप्त ४, ५, ७;
 आसि ३, ६, ३: २०; बौधि १,
 ११: १७; द्विपि ९: ११.
 सु-सस्त्य^{af}- -न्यम् शोषो १२, २३,
 ४^{ag}.
 सु-सदृश^{ah}- -रथा: श्रमा ५, २७.
 सु-सखि^{ai}- > नि-ना- -ता श्रमा ५,
 २७.
 सु-सनिवृ^{aj}- -वृत्त: श्रमा ५, २७;
 १६, १३.
 सु-संता(प)पा^{ak}- -पा: वप्राय २, ९.
 सु-संतृप्त- -पुम् बौधो १, १८: ६;
 -प्यानि द्विपि १५: २०.
 सु-संदृश^{al}- -रथम् बाधो २, १९,
 ३४; ६, २, ४, शोषो; -रथा श्रम
 ३, २४६.
 सु-संधि^{am}- -धिभि: द्विपि २, १०, ७ⁿ.
 सु-संधिक^{ao}- -क: कौष ३, १५, ५^{ap};
 -कै: बौधो २, १०: १५^{aq}.
 सु-संनद- -द: अप ६८, ४, ६.
 सु-सभेय^{ar}- -य: द्विषो १७, ७, ६;
 तैसा ६, ११.
 सु-समा(त)ना^{as}- -नाभि: अप
 ७०^{at}, ४, २.
 सु-स(म)मा^{au}- -मे विध १, २६^{av}.
 सु-समाहित- -त: अप २८, १, ५;
 ३१, ३, ४; १३, ३, ८; शंष ४४^{aw}.
 सु-समिद्ध^{ax}- -द: श्रम २, १, १३^{ay};
 -दम् कौष ३, ६, २; शोष ३,

a) वैश १ द. । b) पाभे. वैश १ सुपुष्मम् टि. द. । c) = मन्त्रमण-विशेष- । d) पाभे. वैश १ सुपुष्मः टि. द. । e) = नाडी-विशेष- । f) उप. सु? । g) ण्यः इति शक. । h) = विप- । i) पाभे. वैश १ सुपुष्मो वैश ११, २ टि. द. । j) <सु>वृत्ता । k) सुपुष् इति माहता. । l) अप. । m) उप. <से>वृत् (आष्वापवे) । n) पाभे. वैश १ सुपुष्मं शो २०, १३५, ४ टि. द. । o) पाभे. १ २५२७ i द. । p) उप. = २समान- । q) उप. = १सम- । r) सुपु इति शोष. ।
 वैश १-७२

११, ३, पाण्ड ३ १, ४, विष
 ८६, १, -प्रायश्चित्त २, ५, ५,
 ५, ५, २६, श्रुत २, १६५, श्रुत
 ३, ८१, -हे शोभो २३, ५, ३,
 कौश २, ६, ६, कौश ७३, ११,
 -हेतु वीपि ३, ४, १४
 सुसामिद्ध-होम- म काशौ २५,
 १४, ९
 सुसामिद्ध- -मिद्ध शोभो १, २१
 सुसमीरित- ते वा ६, १५
 सुसमीरिता(ह-अ)न्त- -न्ता वा
 ४ १३
 सुसमृद्ध- द' अण ७०, १३, ४,
 वाण २१, २५, वीथी २, ८, २१,
 -वम् अण ७०, १८, ६
 सुसंपन्न- अम् कण २, ३, १०.
 सुसंपिण्ड- -अम् वा २१, ४८१,
 -शानि हिपि १० : ९
 सुसंभोजित- तम् कण २, ४, ५
 सुसभिन्न प्रा- -शानि हिपि ३ ४,
 १५ २४, -शाम् वीपि १, ३
 ३३
 सुसंभृत्- -भृत् अणधी १, ४
 १२, ५६, १, वीथी १, २ १८, ८,
 २५, भाषी १, ४, ३, ५, १३, ३,
 भाषी १, २, १, २३, वैथी ३,
 ४: १४, द्विथी १, २, ४, ६, ६६,
 -भृते भाषी १, १, १, ४२
 सुसंभृत- नम् वीथी ७ ६ १३,
 ८ १. १५, १: ५, द्विथी ८ ३
 ३८, -तार वीथी २, ६, ३६,
 -ते द्विथी २, १, ९
 सुसंभृत्- > सुसंभृत्-शृह द्वारो-

(१-उ)पलेपन- नम् कण
 ३३५
 सुसंभृत्शृहद्वारोपलेपण धृ-
 ण-प्रयत- -त कण २३२
 सुसंभृत्-शृह द्वारो(१-उ)पले-
 पन- -न आगिण २, ६, ४ १८
 सुसर्पित- पिंपा वीथ ४, ५, ९
 सुसर्वार्थ- , धि-विक् शब्द- सुद्र
 सुसत्(स्व>)स्या- स्या. काशौ
 ७, ३, २८, श्रुत २, २५२, श्रुत
 ३, ८१, -स्याम् भाषी २, १, २,
 ११, १३, -स्वापि कापधी १०,
 १०, १, वीथी ६, ५ २०, भाषी
 १०, ६, १५, वैथी १२ ९ ६,
 द्विथी १० २, १०, तैषा ६, १२
 सुसह- वीपि २, ६, २२, श्रुत ५
 २५
 सुसाय- -वम् काशौ ८, २, ३५,
 अण १, २६, ३१
 सुसीम- > सुसीम काम- औ
 कौश ७७, ६
 सुसी(मव>)मा- -न्ते भाषम
 २ १३, ४, आण १ १३ ७, पाण
 १, ११, ९, आगिण २, १, ३
 २८, वृष्ट ३ १५ ७, द्विथ
 २, ३, ८, गोण २, ८, ४, द्राण
 २, ३, ४, कौश २४, १३, ३९
 ९ ७६ २३, २४
 सुसुख- ख या १०, १५, -खम्
 वा ६, ३३
 सुसुखतम- म वा ३, ३
 सुसुखम-दशो(न>)ना- नाम्
 विष १, २३

सुसुखम-शुक्ल-वस(न>)ना-
 -नाम् विष १, २८
 सुसुखे(क्षम-हे)श- -नाम् विष १,
 ५७
 सुसुखी-(>सौख-पा) पाण ५, १,
 १३०
 सुसुखल- -खम् वाधुथी ४, १० १
 सुसुखाल- (>सौखाल>)श्री-
 पा) पाण ४, १, १७८
 सुसुखत- पाण ४, ४, १, -त
 विष २१, १, ६५ १, -तम्
 आपण १, ३२, १०, द्विथ १, ८,
 ५२, -तार विष ७३, २.
 सुसुखिक- पावा ४, ४, १
 सुसुखिध- गध अण २१, ५, २
 सुसुखि(व>)पा- -वम् वा १३,
 १११, श्रुत ५ २७
 सुसुखि- -वम् वाणि २, ५१, ५६
 सुसुखि- -अणम् शोभो १२, १६,
 २१
 सुसुखि- -नित कौश ३१, १६,
 शाम ७ ७६
 सुसुखित- पावर ४, २२३
 सुसुखि- र वाणि २, ८३, -तम् वीथी
 २११, -रेण वाणि २६ वाणि
 १५, ५ वाणि २ ८, ११, -रे
 अण २१, ४ २
 सुसुखित- -वृत्ति अण २१, १, ३
 सुसुखि पावा दिवा पर चक्रवर्ते
 सुसुखल- , णि- पा ५ ४, १२१
 सुसुखि- -वम् शोभ १, ११, २,
 २६ ३
 सुसुखि वा- -वम् आशौ ५ २,

d) विष (अभि)। उप वर्तते इत् । e) वल । c) वैप १ इ । d) पाणे वैप १ सुसुभृता ते
 १, १, २, २ टि इ । e) उप <व/सु । f) वत >वत >वत । g) पाणे वैप १ सुसुभृताये वाठ
 २३ टि इ । h) सुसीम इति केशव, अस्तु टि, ११७, प्रवृ व । i) =देग-विशेष- । j) सुसुखल- इति
 भोज (दू पाण) । k) पाणे वैप १ सुसुभृता वी २०, १२८, १५ टि इ । l) भाप । m) पाणे वैप १
 सुसुभृता वा ७, ३ टि इ ।

१,३; -वः आधौ ४,१३, ७;
 आप्तं १,४, १५; आसिष्ट १,५,
 ४: ११; अप्राय ४,१; -यम्
 आप्तौ १८, १५, ३१; वीथी
 २७,६: ७; हिथी १३,६, ३९^०;
 -वा वीथी २,१: १०; हिथी
 ६,३, २; आसिष्ट १, ५, २:
 १२x; अय १,११,३; -वा:
 आधौ ५, ५, ११; आप्तौ;
 -वाय् आधौ १,१०, ८^०; आधौ
 २, २८, ३^०; आप्त २, ११,
 १०^०; आसिष्ट २,१, ५: १३^०;
 ५: २१^०; वा ११, ३१^०;
 ३३^०.

१सु-हविस्- -विः अय ४८, ७५

२सु-हविस्- > सौहविस्- -यम्
 वीथी १८, १५: १७; छाग ३,
 १०: ४७; १२: १८; निव
 ८,२: ५७; -ये लाथी ६, १२,
 ६; ७, ५, १३; २५.

सु-हव्य- पा ६, १, ११८.

१सु-हस्त- > क्ती- -०स्यः कप्पा
 ८ २१^०.

१२सु-हस्त- -०स्त वीथी ६, १५:
 १५^०; -स्तः वा ११, ४३^०;
 -स्ताः आधौ ८, २०, १.

१सु-ह(त्था)स्त्व- -०स्त्व, >
 स्त्वा आधौ ५, १२, १५; क्त
 ५, ४, ७; -स्त्वः क्त २, १०,
 ४१; -स्त्वम् क्त ७ ४७.

१सु-हार्- -हार्ः अय ३, २८; ६,
 १२०; -हार्दाम् अय ३, २८.

सु-हित- -पाग ५, १, १२४; १२८;
 -जः वाधु-वी ३, १०२: १; ४,
 ८६: ५x; वीथः -तम् या
 ३, १२; ५, २६; ९, २^०; -ता:
 आधौ ८, ११, १०; आधौ ८,
 १२, २१; आधौ १, ७, ५, २६;
 २७; आधौ; -ते वीथी ३, १३:
 १४^०; -तेन या १०, १५;
 -तो माथी १, ४, १, ६; वीथी
 ३, २: १३; हिथी ६, १, १६;
 १७.

सौहित- पाग ५, १, १२४; १२८;
 -यम् आधौ ३, ८, १४.

सु-हिरण्य- -अयः वा ५, ११^०.

सु-हिरण्यव- -वा आधौ १२, २१,
 १^०.

१सु-हुत, ता- -ता आधौ २५, १,
 ७; माय २, १५: ११; हिथः
 -तम् आधौ २, २, १५^०, ३, १^०;
 आधौ; -ताः आप्तौ ३, १०,
 १; वीथी १, २, ०, २१^०; आधौ.

१सुहुत-कृ- -कृतः आधौ २, ३,
 १५; ३, ९.

१सुहुत-हुव- -हुते वीथी ६, २१:
 २३; आधौ ३, ११, १; आप्तं २,
 १८, २१; आप्त.

१सुहु- -हुः आधौ ४, ८, १^०.

सु-हव- -पा ५, ४, १५^०; पाग ५, १,
 १२०; -हव हिथी ६, २, २^०;
 आधौ ७, ३, १, आधौ; -हव
 विथ ३, १६; -हवः लाथी २,
 ८, ६; आप्त ४, १; वीथः

हिथ १, ७, १०^०; -हवम्
 वीथि १, १, ३; अय १, ५०,
 ६; -हवाम् अय ११६: ७७;
 ११९; विथ ६४, ३४; -हवे अय
 २४, १३; माय १, १, १८; वाय
 १३, १८; वीथ ५३, १०; अय;
 -हवो गोय २, १०, ३९.

सौहार्द- पा ५, १, १२०; -विय
 आधौ १५ २५, १^०.

सौहृद्य- -वाय् नाधि २, ८, २५^०.

सुहृद्-अय- -नः शीथ ३२२; -नय
 वीथ २, ३, १७.

सुहृद्-परिप्राह्य माय १, २१, ९^०.

सुहृद् परिप्राह- -आय् काय ४०,
 १४^०.

सुहृद्-अर्थ- -र्थे आधौ २, ४.

सुहृद्-नाति- -तिम् हिथि १८: २५.

सुहृद्-गृह- -गृहिणी वीथ १, १८, ४.

सुहृद्-वच- -वः विथ ३६, २.

सुहृद्-नाय- -अय् अय ५३, ५, ४.

सुहृद् मित्र-समागम- -मः अय
 ६८, २, १८.

सु-हृद्- -दाय् अय ६८, ३, ४.

सु-हृदय- -पाग ५, १, १२०; -यम्
 आधौ १५, २२, १.

सौहृदय- पा ५, १, १२०.

१सुहेमन्त- -न्तः वीथ ४, ४, १०;
 वाय ४, १८, ४; पाय ३, २, १२.

१सु हेम(न्त)न्ता- -न्ताम् माय
 २, ७, ४.

१सु-होवृ- -ता आप्तौ २२, १८, १३;
 हिथी १७, ७, ६.

a) पागे. वै १ सुमुक्ताः ती ४, ८, ७ टि. द. । b, c) पागे. वै १ सुहुता यक्. ती ७, ४१, १, ५०, १ टि. द. । d) = १उवक- । e) अय. (डि. लाभा १४, ५, १५) । f) = साम-निवेध- । g) वै १ द. । h) पागे. वै १ सुहस्त मा ४, २७ टि. द. । i) अय. । j) पागे. वै १ सुहिते वै १, ५, १०, २ टि. द. । k) पागे. वै १ सुहिरण्यवः शौ २०, १२८, ७ टि. द. । l) पागे. वृ २६७२ । m) स इति पाठाः ? n) पागे. वै १ सुयुः टि. द. । o) पागे. वै १ सुयुः टि. द. । p) पागे. वै १ सुयुवा ती यनि. शोधः । q) पागे. वृ २६७२ । r) पागे. वै १ सुयुः टि. द. । s) = सुहृद्- । t) यक्. । u) पागे. वृ २५८९ । v) परस्परं पागे. । w) = सुहृद्- । x) यक्. ।

सुहोत्र- न ऋषि २, ६, ३१, सुभ
 ३ २१३, २३६, २५३, ४ २५
 सौहोत्र- न ऋषि १ ६, ४९,
 २ ६०४, -त्रौ ऋषि २, ४, ४३
 सुहोत्रा(न-आ)दि- न्य ऋषि २,
 ६, ५२
 सुह- पाठमो २, २, २४०
 सुहा(न >)जा- नम या ११,
 ३१, ३३
 √स. स- √सु (वषा) द
 रसूकर- पाठमो २, ३, ६५, -र्षि
 आपथी २०, १४, ४, बौथी,
 -रम् बाधुथी ३, ८६ १३,
 अय ७०^२, २३, ७४४, -रा
 अय ७१, ३, ५, -राद माय २,
 १४, ११, -र्षि आपथी ५, २६,
 ५, बौथी २, ५ ११, माथी
 सूकरी- नीम् अय ६८, २, ३२
 सूक-खर- -रे अय ६८, २, ४३
 सूकरखर-वाह- -हानाम् अय
 ६८, २, १४
 सूकर-गर्भ- माद अय ७१, ५, ५
 सूकरजाति- -वय छान् २, १६
 ११
 सूकर प(द >)वी- पाय ५, ४,
 १३९
 सूकर-प्रवेग- -शे माय २७६ ८
 सूकर विकर्मा^{००} वाथी ३, ४, ४,
 २४
 सूकर विनासन्^{००} आपथी २०, १९,
 ९, दिथी १४ ४ ३३
 सूकर-सप्तन्^०->सौकरसप्त- पावा
 ६, ४, १४४
 सूत्रै(१ ए)कम्ब- के माथी ९,

९, ३
 रसूकर-(> २सौकरीय- पा) पाय
 ४ २, ८०
 सू(सु-उ)क- पाय ६, २, १७६, -रम्
 आपथी १, १, १८, १२, २७, २,
 ५, ४, १६, ४, ३, ८, १४४,
 शथी, -कयो आपथी ४,
 १३, ७^२४४, शथी १०, ७,
 ८, बौथी १०, ५१ : १५,
 -करय आपथी ६, ६, १४, ७, ३,
 ३, २१, शथी, -करयऽकरय
 शथी ८, ७, ६, -र्षिऽवाथी
 ५७, ५, शथी १, १४, १^०, ५,
 २०, ५, ७, ६, ६, काथी ३, ६,
 २^०, आपथी ३, ६, ५^०, बौथी १,
 १९ २४^०, माथी^० ३, ५, १६,
 ७ २२, ५, माथी १, ३ ४, १२^०,
 ६, १३, ५, २, ८, ४४^०, नाथी^० १,
 ३, ६, ७, ६, ७, ३०, बौथी १०,
 २१ १३, दिथी २, ४, २०^०,
 ४, ५, ४५, २१, २, ६३, अय
 ३ १३, -काय शथी ७ २१,
 २ १०, १३, १०, निम् ५ ९०
 ५, कौय ३ १०, ३५, शान् २,
 १७, २, -कानाम् आपथी ५
 १०, १६, १८, १४४, शथी,
 -कानि आपथी ४, १५ २, ७,
 १, ८, ५, १५, ८, २, १९, ४,
 ८४४, शथी -कान्याम् शथी
 ४, २, १०, १५, ३, बौथी,
 -काय शथी ७, २१, ८, -के
 आपथी २, १९ ३७, ४, १३, ७^{१०},
 १४, २^०४४, शथी, -केन
 आपथी २, १९ ३५, शथी,

आगि ३, ७, ३ २०^१,
 -केनऽकेन आपथी २, १३, ९,
 -केषु आपथी ५ १८, ६, १०, १०,
 ४, ६, निम्, -के आपथी ८,
 १०, १, शथी १६, १३, ४,
 शथी.
 सौकिरु- कम् चव्य २ ३८
 सूक-वम- म्वात् अय ६, १०४,
 -मेग आपथी १९ १६, २५
 सूक हय- यम् अय १, ८, -वेय
 अय ४, ५, ७
 सूक परिमा(श >)णा^०- गा
 आपथी १७, २६, ११, दिथी
 १२, ८, २३.
 सूकप्रकृतिसारिषिच्छन्दोदैवत- वेतु
 अयम् ५
 सूक-प्रतीक-कनस(ख्या >)र्य-
 ऋषि-दैवत चन्द्रस^१- न्दाति
 अय १, १, १
 सूक प्रयोग- नो ऋषि २, १, १३९
 सूक प्राय- यम् वृदे ३, ८०
 सूक भाञ्- भाक् वृदे १, १९, ६,
 १५९, या २, १३^०, -भाञ्
 वृदे ४, ९९, ५, १४२, ८, १९^०,
 १२९, या ७, १३, -भाञ्जि अय
 ४८, १३२, १३७, १४२, वृदे १,
 १७, १८, या १०, ४९
 सूक भागिन्- शिनी वृद ८, २०
 सूक भागिनी- नी वृदे १, १९,
 २, ७७, ३, ५३, ५४, -नीम् वृदे
 १, ६०
 सूक-वेद्-प्रयोग- नो ऋषि २, १,
 १३९
 सूक-मध्य- न्ये वृदे ४ ९९

a) अय । b) वत । c) = १वराह- । d) उप = ३सर- । e) उप उप नमुहन्तम् यक
 <वि/वृह (हेरने), वि/वत्त (दिसायाम्) दति । f) परस्पर पाठे । g) विप, नाप । h) पाठे वप १
 सुत्ता मा २१, ६१ टि द । i) पाठे वृ १८७८ ०६ । j) पय > दम (त पद्युश्लिष्य) । k) न-सूक-
 माय् इति छेद (इ अय टि आपांम्याप्ताय-।परि) वत एक प्रस वनि इति) ।

सूक्त-मुख->प्री(प>)वा-या
आथी २, ५, २, १६, -ये आथी
९, ३, २३, ५, २, ५, ५, २६,
८, ४.

सूक्त(क-श्रं)भं भयं च पाद-दानाम्
श्रुदे १, १

सूक्त-वर्णक^०- कम् अप २ १

सूक्त-वाक^०-कम् आथी १, ९, १५,
आथी १, १४, २, आपथी ८,
१६, १८, माथी, -कल्प आथी
२, १६, १२, आपथी ४ १२,
६, ८, २ ४, ५, ८, ५, ५, ५,
-कम् माथी १ ८, ६, १२,
-कम् आथी १, ९, १, आथी
३, ६ २, आपथी, -के आथी
२, १९, १०, १४, ४ २, ५, ५,
आथी, -केन द्विथी ६, ३, १२,
मीम् १२, २, २५.

सूक्तवाक-देवता- वा आपथी
४, १२, ४.

सूक्तवाक-मभृति- ति माथी
१९, ५, १२

सूक्तवाक-प्रेष- य आथी ६,
११, ४, आथी १९, ५, ११,
आपथी ७ २५, ६, दुम्, -यम्
आथी ५, २०, ५ -ये आथी
३ ६, १६

सूक्तवाक-वर्ष मीम् २०, २, ५-

सूक्तवाक-शयोवाक- कपो
काथी ९, १२, १

सूक्तवाक(क वा)दि- दि
आपथी ३, १४ ७

सूक्तवाक(क-ल)न्त- न्ते काथी
३, ६, १२

†सूक्त-वाक्^०- वाक् आथी १, ९,
१, आथी १ १४, २

सूक्त-वाद- द श्रुदे ८, १००

सूक्त विष्टुदि- वी^० आथी ७, १९,
२०

सूक्त-वत- तम् श्रुदे ६ १४६

सूक्त वत्त- व्द श्रुदे ८, १००

सूक्त शय() अप ४ २०

सूक्त शेष- य आथी ६, ४, १०,
शांती १२, ११ २१, कौष्ट १, १,
१, शाष्ट १, ४, २, श्रुदे ३, १२,
१२८, ४, १४४, -यम् आथी ६

९, ५, ७, ६, ६, १९ २५ आष्ट
२, १०, ६, ३, ११, २, श्रुदे ७,
१०१, -पत्य श्रुदे ८, १६, -देन

कौष्ट २, ६, २, शाष्ट १, १६, १२,
२ ८, १, श्रुदे ८, ९, -पी वैताथी
३३ ८

सूक्त-सत्वा- कथा प्रथम १, १२,
१, ३, ६, -तवावा श्रम १

१२, १

सूक्तसप्तमी- न्याम् अप १ ११

सूक्त सङ्ग- तम् श्रम २, १, ११,
श्रुदे ३, १२०

सूक्त-सामन्- न्मो वा ५ २ ५९

सूक्त स्थान- नेषु आथी ७, १ ८,
२, १, १५, ५, ४

सूक्त(क ल)म- मम्, प्रेष अप
३ ४

सूक्त-परिमाण- जेल अप
३ ५

सूक्त(क आ)दि- दि श्रम ३, ५,
-दिमि अप ४६, २, ४, -दौ

आथी १, १, १८, कौष्ट २ ४, २२,
शाष्ट २, ५, २५, २६, श्रुदे ३ ४५

८, ४२

सूक्त(क-श्राय>)वा- या श्रुदे
६ १२४

सूक्त(क व)सुरूप- य आथी १८,
२३, ६, ९, ११, -पाद निष् ४,
६ ४.

सूक्तसुरूप-ता- ता निष् ४,
६ ६

सूक्त(क-श्र)नुवाका(क-श्राय>)
धा- चा^० कौष्ट ३, ५, ९,
-घामि शाष्ट ४, ५, ४

सूक्त(क-श्र)न्त- न्त आथी ५,
१८, १०, -न्ते कौम् २७, २२,
श्रुदे ७ ३९

सूक्त(क-श्र)निधान- नम् श्रुदे
८, १००

सूक्त(क-श्र)भिमन्त्रित>शा-
-ताम् अप ९, २ ६

सूक्त(क श्र)वस्था- स्या अप २
६

सूक्त(क ए)कदेश- स्या श्रुदे ८,
१०१

सूक्त(क व)व^०- पञ्चम् आथी
१, ९, १, आथी १, १४, २

सूक्त(क-उ)तम- मै अप ४६,
२, ४

सूक्त चामा^०- पाठ ४ १५७, -हम्
अप ५४ २, २, -हम् वैष्ट ५,
१२ १६, अप ६३, १५ माधि
३, ६, ४ ३, १४, १०, याति,
-हमा बीध १, १, १२ काष्ठ ७,
१२, -हमात् अप ३५, १ १६,
-हमात् माधि २, १४, -हमै
विष्ट ९६, ५७

सौख्य- -हम् यति १,
३५, कौष्टि ३

सूक्त ल- ह्यात् विष्ट ९७, १८

सूक्त रश्मि^०- श्राप अप ५२, ३,
१, ६ ५

a) प । b) वेष्ट १२ । c) न्यौ इति पाठ^२ बनि शोष (तु भाष्यम्) । d) पाठ १
घामि इति शोष (तु शाष्ट) । e) वत

सूक्ष्मवक्त्र^१-> पत्र तरा (र-आ)
 धर्म-धं पावा २, १, ६९
 सूक्ष्मन्^२-इमान् अप ५२, ४३
 ✓सूक्ष्^३ पाषा डुरा ठभ वैशुन्वे
 सूक्ष्^४-(> सूक्षित- पा) पाग ५,
 २, ३६
 ✓सूक्षि^५ सूक्ष^६- पाग ५, १,
 १२८^१, २, ३६^२, -क विभ ४५,
 ८, -कान् विभ ८२, १९
 सूक्ष्व- पा ५, १, १२८.
 सूक्षित- पा ५, २, ३६
 सूक्ष-> सूक्षी^७- पा, पागम)
 पाठ ४, ९३, पाग ४, १, ४१,
 पागम ५६
 सूक्षि^८- पाठ ४, १३९
 सूक्षी- ची वा ११, ३१४,
 -ची वीथी १५ ३०: १३,
 २०, -चीनाम् वीथी १५, १५
 ५, -चीमि वाथी २०, ५, १,
 आथी २०, १८, ७, वीथी,
 -प्य वाथी ३, ५६ ३४,
 -प्या आथम २, ११, १०^१,
 कौष्ट १, २०, ६, आथिष्ठ, मा
 ११, ३१^१.
 सूक्षी-कण्ठ^९- ण्वा विभ
 ४३, ४४
 सूक्षी प(द>)वी- पाग ५,
 ४, ११९
 सूक्षी सुक्ष^{१०}- खा मप्र
 ११, १०
 सूक्षी-वेध-कृत्-यत्-न्वात्
 वैष ३, १५ ६^१

सूक्षि^१- -क वैष ३, १५, ६
 सूक्षि प्रतोद-वेधी- ष्यः शध
 ३७४
 सूक्षिक-(>सौक्षिक्य- पा) पाग
 ५ १, १२८.
 सूक्षि-उ)श- -वै. आपथी १२, १५,
 ८, द्विथी ८, ४, २३^१,
 १, २३८- ✓सु (उभा) द.
 सूक्षित-(>सौक्ष- पा) पाग ४, २,
 ७५
 सूक्षक-प्रत्य ✓सु(बधा) द
 सूक्ष^१ पाषा सुता ठभ वेष्टने,
 विमोचने^१, श्रवमोचने^१
 सूक्ष(प्रसा)^२- पाठ ४ १६३, पाग २,
 ४, ३१, ५, २, ३६^१, ४, ३०, -उम्
 काठथी १२७, वीथी २, ८ ५,
 २४, १७, ३९ ५, २०, १ १७,
 २. १२x, आथिष्ठ १, ३, ११
 ४, २, ४, ९ १३, १५, काण्ड,
 अथ १० ११^१, पा ८, ३,
 ९०, -उयो आथी १२, ९, १२,
 -उथि काथी ४, ५, २, काथी
 ४, १, १६, वीथी, -उत्त काथु
 ७, ४, पा ४, २, ६५, -उत्तान्
 वीथी ५, १७ ५, २१, ६
 ४, वीथी, -ले वीथी ५, १६
 ४, १२, १४: ७x, वैथीका,
 -वेण वीथी ६, १२ ५, ९,
 १७. ५x, आथिष्ठ, -त्रै काथी
 १२, १, १८
 सूक्षि^३- उम् श्राष्ट १, १, ५,
 वीथ २, ५, ५

सूक्षी- -श्रीम् काण्ड ४१,
 १२, माण्ड १, २ ६
 सूक्षक- पा ५४, ३
 सूक्षकार^४- पा ३, २, २३, -उम्
 आथिष्ठ २, ६, ३: ३९, वीथ २,
 ५, ०७, -नाथ वीथ ३, ९, ६,
 माण्ड ३, ११: ३, -रेभ्य आथिष्ठ
 १, २२ २९, माण्ड ३ ११: ४,
 द्विष्ट २, २०, १.
 सूक्ष-कार्पाव-गोमय-गुड श्वि क्षीर-
 तक वृण लण मृद् भस्म पक्षि-
 मस्त्र घृत वैक मात मधु वैदळ
 वेणु-सूक्ष्मयलोद्भाण्ड- ण्वा
 नाम् विष ५, ८३
 सूक्ष-प्रह- पावा ३, २ ९
 सूक्ष चोदित- न्त कय ३ ४, १
 सूक्ष-नास्र (१) वीथी २६, ३३
 २४, श्रम ३, १४.
 सूक्ष तन्तु- न्तुना काण्ड १८, १,
 -न्तुम् कौष्ट ४, ९, ३, काण्ड ४,
 १४, १५, कौष्ट ४, २, २४, -न्तु
 श्राष्ट ३ ५, २८,
 सूक्ष दण्डा(ण्ड-जा)दि- -दीमि वैष
 २, ९ ६, १३ ८
 सूक्ष दोष-वरिद्र^५- -द्रस्य कथं ७,
 ३९
 सूक्ष-नास्र^६>सौक्षवाधि-पा) पाग
 ७, ३, २०
 सूक्ष प(द>)वी- पाग ५, ४,
 १३९
 सूक्ष-नास्र- डे पावा १, १, ३४.
 सूक्ष प्रवचना(न-अ)पाथिन्- वी

a) वस. । b) = सूक्ष्म- । c) पावा ३, १, २२ परामृष्ट द । d) = सूक्षक- इति पावा ।
 e) = ध्येय- । f) पृ २४६८ d द । सूक्षक- द्रव्यम् (इ पागम) । g) = सूक्षी- । h) वैष १ द ।
 i) *पणह* इति आ । j) नाप. (चर्महार-) । k) पावा ३, १, २२, २६ परामृष्ट द । l) इत्तु आण्ड ।
 m) नाप (भ्यवस्था पपन- , यज्ञोपवीत- प्रष्ट) । विष्ट वैष १ द । n) वृ. पाथि । o) वृ पागम ।
 p) विर (यज्ञोपवीत-) । विद्यारि म्प्र. । q) उप क्तीरि <✓दृ । r) पठ >सुस । s) व्यप ।
 *२- श्रवणि पागम ।

वीथ १,७,६.
 सूत्र प्रायश्चित्ति- -सि. अत्राय ६,
 १०.
 सूत्र-यद्- -इत् वाथौ ७,६, ९
 सूत्र-म(य>)थो- -थो वा ५,२२
 सूत्र यद् कौत् १०७, २१, वासि
 २,३०, वासि २,५, २.
 सूत्र संहित- -नम् वैथ २, १२:
 २०, वैथ १, ३, ३
 सूत्र(र म)त्रित-धरित्- -नी वैथ
 २,८: १२, वैथ १, ३, ६
 सूत्रा(न-म)न्त- -न्तात् वा ४,
 २,६०.
 सूत्रि>श्रुतित- -ता काथौत्
 २७: ३
 श्रुतित- वा ५,७, २६.
 सूत्रे न-उ)कि- -न्तं जैथीका
 १८२.
 सूत्रे(न उ)त्- -नित: आथौ १६,
 १०, ९, द्विथी ११, ३, २६.
 -नम् वैथी १८, ७-२८, आपथ
 १२, ८, कौत् १६, २९
 सूत्र(यथा)वाथा भा. अराम,
 जुरा. उम सरणे, सूत्रपदत
 अथ १,२६, अथ ३: ७
 सुप्रदिम द्विथी १२, ६, ६१
 सुप्रयन्तु अथ १८, १, १२१
 सूत्र(यथा)- -पाय ३, १, १३४, ४,
 १, ४१६, ६, १, १९९, -३. वीथी
 २४, १४-३०, वाप ४८, ७७१,
 निष ३ २३१, -दम् सूत्राथी
 ५, १, ७, ९, १०, वीथी, -दे

वीथी २४, १४. ३.
 सूरी- वा ४, १, ४१
 सूद्र दोहस- -द्विस: आथी २,
 ३, २६, शंथी १८, १, २३,
 आपथी, -हसम् शंथी १८, १,
 २३, २, ७, ३, ३×४, वीथी,
 -हसा वाथी २, १, ६, १, द्विथी
 ११, ५, ३४, ८, १७, -इति
 शंथी १८, २१, १, -इसौ वीथी
 १०, २४: २०, ३०-७×४,
 वीथि १, १५: ८५, -दा. शंथी
 १८, ७, २१.
 सूद्रदोहस- -सेन वैथी
 १८, १७: ३, १६.
 सूत्र-वत्- -वत् आपथी १२,
 २३, ११, १३, १०, ५, माथी.
 सूत्रित- -नम् वैथ १, ३ २१
 सू(सु-व)द्वगात्- -ता द्विथी १७,
 ७, ६१.
 सूया- -ता काथी १५, ४, ३०.
 सूत्र, ना(वरा) ^{१०७} पाठ ३, १३, पाय
 ५, २, १३६०, -नस्य वृदे ४,
 २९, -ना शंथी १७ ३ २१, ४^०,
 शंथ १३१, विम ५९, १९,
 -नाम् वीथी ९, १ ५, १८,
 १०, १: ५, १६, -नाथा
 आपथी १८, २०, ५, वाथी ३,
 ३, ४, ४, द्विथी १३, ६, ४६,
 -नायाम् वीथी २, १८: २८,
 ३, ४ १५, गोथ ४, २, १०
 सौनिक- >था(क-अ)त्र-
 -नम् शंथ ४३४

सूत्रा-य- -स्यम् विप ५१, २७
 सूत्रि- वा ५, ३, १३६.
 सूत्र(र>)री- -रिमाथी ९, २, ३,
 काथी ३, ६, ३, कौत् १, ८, १७,
 २०, आथ १, १३, ११, -नृरी
 आथी ४, १४, २, शंथी ६, ५,
 २, ९, २८, ९, १०, १२, ८, आपथी,
 माथी ४, १५, ३, निष १, ८.
 सूत्रु- √सु (यथा) द.
 सूत्रु- पाय ४, १, १८, १०५, -नु:
 अत्र २, १०, १७६
 सौन्य- वा ४, १, १०५
 सौन्याय(न>)नी- वा ४,
 १, १८
 सूत्रु(त>)ता- -तथा आपथी १६,
 १८, ६, वैथी १८, १५ १८,
 द्विथी, -ता आथी ७, ८, २,
 शंथी १२, १२, १, आपथी,
 -ता आपथी ४, ८, २, माथी
 ४, ११, ४, द्विथी, -०वे शंथी
 २, १२, ३, आपथी ४, १०, ४,
 माथी ४, १५, २, द्विथी, आपथं
 १, ३ १४, वाप १४, १३.
 सूत्रुतायत्- -वत् आपथी १,
 १३, १, १६, ३४, ४, माथी,
 -वत् काय २५, ३.
 सूत्रुतायती- -तो पाथ २,
 १७, ९, ३, ४, ४, आपथि २,
 ४, १-१४, वाप ११, २, माप,
 निष १, ८
 सूत्रुताय(र>इ>)री- -री अथ
 ४८, ११०, निष १, ८

a) मलो कम । b) वस । c) उव <√वि । d) वा ३, २, १५३ परागृह द । e) वैप ३ द ।
 f) तु पाका पायम । श्रु- इति आह्वय वासि । g) सूद्र- इति [पथे] शाकटात्मन (द्वि पायम) । h) =जलाशय-
 सूद्र- (द्वि सूद्रत [आपथी ५, २, १]) । i) =कूप- । j) विप, नाप (उपवाचत) अणु-विशेष- । k) रशथे
 कसू प्र । l) वा हेरन श्रुतिः । m) =अणु- । n) प्र ५८८ ज द । o) तु पायम । p) =वीणाकवक-
 विशेष । q) तेनजीवतीत्यर्थे कक प्र । r) परदार पाथे । s) या इति पाठ । यति सोष (द्वि वै १, ६, ३,
 १) । t) अथ- । u) पाथे वैप १ सूत्रुतायती सौ ३, १२, २ दि. द ।

सूय^१- पाठ ३, २६, पाग ४, १, ४१,
५१, ४, -ये हिंश २ १, ४९^२
सूयि- वा ४, १, ४१

सूय पं(द)री- पाग ५, ४, १३९

सूय वत्- -वन्तम् वीथी २०, १६
३२

सूय-ससूय- -येन आपथ २, ३,
१९^३

सूयो(प को)वृत्- -नेन वीथ २,
११, ५४

सूय- वा ५ १, ४

सू(सु-उ)प-चर-> -रन्तम् -मा
आपथी ६, ३१ १३^४

सू(सु-उ)प-चर(उ)णा^१- -णा
आथी १, १, १, शोथी १, १४, ५,
द्विथी ६ २, ११

सूयत् पाग १, ४, ५७

सू(सु-उ)पनिव(द)दा- -दाम्
वीथी ६, २५ ९, ११

सूयपादय^१- -य वीथी २०, १, ३

सूपरकोहिन्- -नी माण २, १४,
२९

सू(सु-उ)पर्वन्- -र्वन्ति वृ ३१, १

सू(सु-उ)पलदय- -क्ष्वा माणि १, ५

सू(सु-उ)पवञ्च(न)ना^१- -ना^१,
आणि ६ २, १ ३४, वीथि १,
१५ ३४२

सू(सु-उ)पस(द)दा- -दा वीथी
९ ७ १३^१

सू(सु-उ)पस्वल्- -स्वल् माण १,
२२, १३

सू(सु-उ)पस्थी^१- -नथा शोथी ६
१, १७, आपथी १०, १०, ६^१,

वीथी ६, ५ २३, २१, ९

१८, माथी १०, ६, २०, माथी

सूपाट-> (टी-पा) पाग ४ १, ४१

सू(सु-उ)पायन, ना^१- -न वीथी ३,
८ २८, -ना आणि ३, ८, २
३३, वीथि १, १५ ४१

सू(सु-उ)पायगा(द)दा^१- -दा
आपथी २०, १, ३, द्विथी १४,
१, ३, वीथ ३, १, ३

सू(सु-उ)पावृत्^१- -वृत्ती आपथी २,
१३, ३, माथी २, १३, ३, द्विथी
२, १, ७

सू(सु-उ)भर्व^१- -र्वम् या ९, २३ १६^१.

सू(सु-उ)भूत्- -न्तम् वीथी ३, २, ५,
३५^१

सूय- पाठ १, १४५

सू(सु-उ)मय^१- -यन् या ६ ३३^१,
अप्रा ९, २२, उष् ४, १९

सूयमा- सुयम- द

सू(सु-उ)यवत्- -स वापृथी ४,
१ ४, अत्रा ९ ७, -से आपथी
७, २८, ७, वापृथी ४, १ ३,
वीथ २४, १७

सूयवत्(स अ)र^१- -सात् आपथी
३, ११, ४, ४, ७, ४ शोथी ३,
२०, १, ५ १०, ३३, आपथी

सूयवत्(स आ)दि(व)नी- -नी
या ११, ४४

सूयवत्(व)नी- -नी वीथी
६, २४ ३४, शुभ्रा ३, १२९,
तेप्रा ३, ७

सू(सु-उ)यवत्-> सूयवत्^१-
सि शोथी १५ २१ १, २४

२५, १

सौयवत्तायन- -ना वीथी ४,
५४

सूर^१-

सूर- पाठ २, २४, -रि आपथी
२, ११, ८^१, वीथी १८, १४
४, वृदे ६, ८, अत्रा २, ११२४,
-रि^१ आपथी १६, १९, १,
वीथी १८, १६ १०, द्विथी ११,
६, ३१, -रि^१ आपथी १६, ३,
१२, या ४, १३, -रि^१ आपथी
७, २, २, १२×४, शोथी १०,
१०, ४×४

सूर-स्थान- -ना ना ११, १६

सूर-चक्षु^१- -क्षस आपथी ६, ५,
१८, ७, १२, ७, आपथी १४,
१६, १, द्विथी, या ११, १६^१

सूर(सा)रु^१- -रा या ११,
१६

सूर्य- पावा ५ ४, ३६

सूर- (> शोथी- वा) पाग ४,
२, ८०

सू(सु-उ)रत्- पाठ ५, १४

सूरमत्-> सौरमत्- पा ४, १, १७०

सूरसेन्- (> सौरसेन्-)

सूरि^१- पाठ ४ ६४, -रय वीथी ४,
४ ३१^१; वृ ८ १, आणि २,
४, ३ ४^१, माणि ४, १३, वीथि
२३, -रि^१ माथी ५, २, १, १३,
अप ४८, १७, अत्रा, -रि^१
वृदे २, २४, अत्रा ५, १७^१,
-रि^१ आपथी ७, १७, २, द्विथी
४ ३, ५५

g) = द्विदल (दाल इति नवा) । h) पाणि वृ २४८० ८ द । o) वृत्त (पा २, १, ३४) ।

द) वैप १ द । d) पाठ १ (द्वा कर्त्तुं टि) । f) = विनामक विशेष । g) वस । h) पाणि वैप १ अ
१०, १८, ११ टि द । i) पाणि वैप १ सूयसुदना मे ४९, ३ टि द । j) पाणि वैप १ सूयस्था ते १, २, २ टि
द । k) विप (> मय) । लव खल् म । l) व्यप । m) वृ २६९१ f द । n) पाणि वैप १
श्या काठ ३८, १४ टि द । o) वृ ९४२१ f द । p) पाणि वैप १ सूरि वै १६, १००, ३ टि द ।

१सूर्यी^० - सी^० आपथी २६, १६,
 १; वैथी १८, १४ : ९.
 ✓सूर्ये पाषा. धना. पर. आदरे;
 सूर्येति ऋष ४८, २८१; सूर्ये
 आपथी ५, ३, २१; ६, १४, १३;
 १४, १३, १२; माथी.
 ✓सूर्ये पाषा. धना. पर. ईष्वाम्.
 सूर्ये^० - पा ८, २, ६१; -१ते निप ४, ३;
 वा ६, १५४.
 सूर्ये^० - (>सूर्ये)
 सूर्ये^० - पाठ ५, ३३; -संम् लाथी ८,
 ८, ३२.
 सूर्ये^० - पाठ २, २, २४७; पाग ४, १,
 ४१.
 १सूर्ये^० वा ४, १, ४१.
 २सूर्ये^० (पञ्चा.)^० - मि वा ५,
 २७४, -मिम् वाथुथी ४, ३० :
 १२; आपथ १, २५, २; २८, १५;
 वीथ २, १, १३; हिथ; -मीं छुप्
 १, २ : २२^०; -मीम् वाप २०,
 १४; -संम् वा ५, २७१;
 -स्यं अत्राय ६, ११.
 १सूर्ये^० - नवाथ काण ४, २०.
 १सूर्ये^० - २सूर्ये - ३.
 २सूर्ये^० - -०थे आथी ६, ५, २; ७,
 ६x; वाथी; वीथ ५६, ७१^०;
 -वेः १वाथी १, २, १, ४, १; २,
 ४, २५x; वाथी; आपथी १४,
 २९, १; पाथ १, १, ५१^०;
 आपथ ३, ४; लाम १, २, ६; १५;
 २, १, १६x; वृदे २, ६१^०; ७,

११४; १२८^०; शुभ १, २९^०;
 वाज्यो ७, १०; वेज्यो ३९; -संम्
 १माथी ३, ३, १; ७, ४, ३; वाथी;
 आपथी ४, १, ८१^०; वीथी २०,
 १ : २८^०, माथी ४, १, ११^०;
 हिथी १, २, ५१^०; शंष १२६ :
 ५९^०; -संम् १वाथी ३, १०,
 १६; ४, ६, ३; वाथी; चाथी
 २ : ३; १६; ७ : ५; -वाः
 आपथी १३, २१, २१; १वाथी
 १८, १६ : १०; १९, १० :
 १७; हिथी २, ५, ४१^०; वा
 १३, २^०; -वाथ ३वाथी ४,
 ११, ६; वाथी; वेज्यो ३७, -संम्
 अत्र ५०, ७, ३; -संम्वात् अत्र
 ४६, १०, २४; अत्र १९, २३;
 -संम् १माथी ५, २, १; २;
 वाथी; -वेः वाथी १८, ५, १;
 आपथी; -वेण १वाथी १, ११,
 १^०; १४, २४, ५; आपथी; वीथी
 ५, १० : २७^०?; -यो ३म् आथी
 ५, ९, ११; -यो अत्र ५०, ७, २.
 सूर्ये^० - पावा ४, १, ४८;
 -वेवा वृदे ७, १४०; -यो अत्र
 ४८, १०२^०; १४४^०; लाम;
 १निप १, ११^०; ५, ६; वा १२,
 ७४; -संम् १आपथ १, ५, ३;
 १०, ९; वीथ १, ८, ३२^०; वाथ
 १, १४, १२^०; वाथ; -१वाथाः
 वाथी ४, ११, १; वाथी ३, ३,
 १२, वीथी; -संम्वात् वृदे ३.

४५; -वाथे वाथी ९, २८, ५१^०;
 १^० वीथ ७७, ५, २३; वृदे ७, १२३;
 -१^० वेण काण २६, ४; माण १,
 १३, ६; वाण १५, २; वा १२, ८.
 २सूर्ये^० - पा ६, ४, १४१; -सं
 वेज्यो ३१^०; -संम् वेण ६, ८ :
 ११; शुभ १, १५३; २, २४१;
 -रात्र वेज्यो २८; -रात्रि शुभ
 ४, १४९; -रे ऋष ५५, १, २;
 शुभ १, १५१.
 सीरी^० - पा, पावा ६, ४,
 १४९; -सी वाथी १४, १, ३;
 ३२, २; आपथी २२, ८, १४;
 आथी २८ : २२; वीथी १७,
 ५८ : १२; ६२ : १५; हिथी
 १७, ३, ३३; आपथ ७, २१;
 लाम; -सी आपथी १०, १५,
 ६x; वीथी १९, १० : १९;
 २९, १३ : २०; वाथी २, १, २,
 ३१; -सीमिः माथी ५, २, २,
 २३; वाथी २, १, २, ११; वैथी;
 -सीमाम् वीथी ८, ५ : ६x;
 वैथी १६, ६ : ७; -सीम् वैथी
 १२, ११ : १०; भाण १, १८ :
 १४; हिण; -रीषु आपथी १४,
 १८, १०; वीथी १६, ३१ :
 १८; -सी निष् ४, १ : ५;
 लाम २, ७, ६२x; वृदे
 -सं आपथी १०, २७, १०;
 वीथी ३, १५ : २६x; माथी;
 -वे लाम २, १, १६४, ८, १०१;

o) वैप १ द.। b) पामि. वैप १ सूरिः काठ ३८, १३ टि. द.। c) वृ २६९१ गृ द.। d) = सूर्ये-।
 e) पामि. वृ २३५१ इ द.। f) = २सूर्ये, मि- इति पावम.। g) = [पावमि-] श्री-प्रतिष्ठा-। h) = निष्ठा-।
 i) पामि. वैप १ सूर्ये वैप ४, ५, ९, २ टि. द.। j) नाप., व्यप. [लाम १, २५-]। k) पामि. वैप १ सूर्ये वै ४,
 १, २४ टि. द.। l) पामि. वृ २६ १ द.। m) = निष्ठा-। n) सत्र. ऋष २, १०, १७ सीमिः इति पामि.।
 o) पामि. वैप २, ३ सं. अङ्के तैत्रा ३, ७, ४, २ टि. द.। p) = एकवक्त्राद्वाङ्मयतम-। q) व्यप.। r) सु^० इति
 पाठः इ यनि. सोच.। s) = वान्-। t) = सूर्यात्मक- (क १०, ८५)। u) पामि. वैप १ सूर्ये क १०, ८५,
 २० टि. द.। v) निप.। तस्यैदनीयः सास्यदेवतीयव अणु प्र.। w) = संकतर-। x) निप., नाप. (इति-प्रच.)।
 वैप-प्र-७३

अस १६, १; वृदे.
 सौर-अग्र- -अग्र-वृ ६,
 ८ : ७; अग्र ४१, १, ६.
 सौरा(र-आभा>)म^२-
 -भा: अर ५२, २, ३.
 सौर्यर्षा^२- -र्ष: आधौ ८,
 ६, ४; राधौ ३, १८, ३; ४; ११,
 १३, ८; काधौ: निरू ५, १२:
 ११; वीरू ७९, ३१; अम
 २, १०, ३७; १५८५५; -वैरू
 आधौ १४, ३, १७; आपधौ:
 -यैया आधौ ९, ८, २; -यैय
 आधौ ११, १३, १; आधौ
 ५, ११, १४; -र्षा आधौ ९,
 २, २१; अम १९, ७०; २०,
 १२३; -र्षा: आपधौ २०,
 १५, ३; २१, २१, १३; वीधौ
 २४, ३८ : ४; हिधौ: वृदे ६,
 ६; अम १९, ६७; -र्षाणाम्
 वीधौ १५, ३१ : २०; -र्षाणि
 आधौ ६, ५, १७; राधौ ९,
 २०, २०; माधौ: -र्षा वृदे
 ७, १२२; -र्षा आपधौ १९,
 २३, ४; हिधौ १६, ७, ९;
 २२, ४, १९; -र्षाम् आपधौ २, ४,
 १२; -र्षे वीधौ २६, १३ :
 १२; हिधौ ६, ८, ८; माधौ १,
 ४, १६; वृदे ६, १२६; ७, ३१;
 -यैया वीधौ १०, १ : १; आभिष्ट
 ३, ७, १२४, १, ३ : २४; वीधि:
 -यैयु हिधौ १५, ५, १२; शुभ
 ३, १४ : ८; -यै: अग्र ७०^१, ६,
 ५; -यै वृदे ७, १२५

सौर्यो^२- -र्षो अग्र ७०^२,
 ६, ५.
 सौर्य-वृष^१- -हे वैताधौ ३३,
 ५
 सौर्य(यं-श)र्ष- -र्षाणाम्
 हिधौ ११, ७, ५६.
 सौर्यार्षा-पान्द्रससी- -सी-
 म्नाम् आधौ ९, ८, १.
 सौर्य(यं-अ)र्ष^२- -म्नाम्
 आधौ २०, ६, ५.
 सूर्य-र्ष^२- -र्ष अग्र ५२, १, २.
 सूर्य-कान्त^२- -न्तम् वृष्ट २, ४, २.
 सूर्य-क्षर^२- -पाम् वृदे ४, ११४.
 सूर्य-ग्रह^१- -हे आभिष्ट २, ५, १ : ६,
 सूर्य-छाया- -या अग्र ७०^१, १९, १;
 सूर्य-उपोत्तर^२- -रि: वीधौ १,
 १४ : ७; माधौ २, १०, ३; हिधौ:
 -रिपम् आधौ २, ४, २५;
 आपधौ ६, ९, ४; वीधौ.
 सूर्य-खच^२- -खचम् माधौ १, ८,
 ११^२; -खचा राधौ ७, १०, १२.
 सूर्य-खच^२- -चसा^१ आपधौ
 १८, १३, ११; वीधौ १२, ८ :
 १२; आधौ ३, ३, १, १९; हिधौ
 १३, ५, १४.
 सूर्य-दर्शन- -नम् अग्र ४१; अग्र
 ८६ : १४.
 सूर्य-दक्ष- -दक्ष: वा ६, २६, १०,
 १३.
 सूर्य-देवता->व(ल >)प्या-
 -प्या: वृदे ५, ३.
 सूर्य-देवत- -ता: वृदे ८, ११९.
 सूर्य-देवत- -नम् अग्र ५७, ३, १.

सूर्य-नक्षत्र^२- -त्रे माधौ ५, १, १९;
 हिधौ ३, २, २०.
 सूर्य-नामन्- -मभि: वीधौ १९,
 १० : १५.
 सूर्य-पत्नी^२- -त्री अग्रमं २, २, ३१;
 -त्री: माधौ १, ६, २, १७; वाधौ
 १, ५, ४, २४.
 सूर्य-पुत्र- -त्र काष्ठ ४१, १७; १;
 -त्रा: अग्र ५५, १, ३; -त्राणाम्
 अग्र ५५, २, ३; -त्रान् अग्र
 ५५, ३, १.
 सूर्य-पूजा-पूर्वक- -कम् माधौ २,
 १४ ३१.
 सूर्य-प्रतिमुख- -खा: वंघ १, ८, ३.
 सूर्य-प्रभा-स्तुति- -ति: अम २,
 ८, १०१.
 सूर्य-प्रसूत- -त्री वृदे १, १०१.
 सूर्य-यक्ष- -क्षम् अम २, १०.
 सूर्य-यम^२->सौर्ययाम^२- -सौ
 आपधौ २०, १३, १२; वाधौ ३,
 ४, ३, १४; हिधौ १४, ३, १४.
 सूर्य-रविम- -रमया, -रिमभि:
 वा १४, ३१.
 सूर्य-रश्मि-प्रतीकात्- -कात्
 वाधि १, ११.
 सूर्य-रश्मि^२- -रिम: वीधौ १०,
 ४५ : १३; आभिष्ट १, ५, २ :
 ४१; वृष्ट १, १८ : ३; अम २, १०,
 १३९; वृदे ८, ५१; वा २, ६.
 सूर्य-रथ्या(रथ-अ)न्यथ- -न्या:
 पावा ३, १, ११४.
 सूर्य(यं-श)र्ष-भाग- -गाम् वेजधौ
 २६.

a) वस. 1 b) वैप १ द. 1 c) विप. (पुष्प-प्रम.), नाप (मास- निवाह-प्रम.), व्यप. 1
 d) पाणे. वृ २६९३ B द. 1 e) य-लोपविश्वतः उत्तं. (पा ६, ४, १४९) । f) = साम-विशेष-1
 g) = उपपह-विशेष-1 इषये अन् प्र. (वा ५, ३, १०) । h) = मलि-विशेष-1 i) उप. = २क्षय-1 j) उप.
 = उपपह-1 k) पाणे. वैप १ अ ८, ११, ७ दि. द. 1 l) पाणे. वैप १ सूर्यलघवः का ११, २, ३ दि. द. 1
 m) = हस्त-नक्षत्र-1

सूर्य-लोक- ऋम् अय २,४, ७^३;
 १२ १,१०; -के अय ११, ३, ५.
 सूर्य-यत् बृदे ६, १३४; १३६.
 सूर्य-यत् - जवतः आपथी ४, ८, ४;
 माथी ४, १२, ३; द्विथी ६, २,
 २०; -यते काथी २५, ३, १६.
 सूर्यवती- -ती विस्र ७, ५:
 १५; -थ्यः विस्र २, ११: २४;
 ६, २: १४; २०; ७, १: १५.
 सूर्यवत्-सा- -तया विस्र ७, १०:
 २३.
 सूर्य-व(रस>)त्सा- -स्ता या २,
 २०.
 सूर्य-वरुण^०-> सौर्यवारुण^०- -णान्
 माथी ५, २, १, २१; -णानाम्
 माथी ५, ३, १, २२; १८.
 सूर्य-वर्ध-निरीक्ष- -थाः अय ५२,
 १२, ५.
 सूर्य-वर्ध^०- -वैतः आपथी १८,
 १३, १०; वीथी १२, ८: १२;
 २६, २: ३; वाथी; सु २५, ५६;
 वाथ १४, १०; वाथ १, ३२०६^०;
 -वैतम् वीथी १७, ४१: ८;
 १६; आथम १, १, ९०; आथिष्ट
 १, ३, ४: २; १०; काथ २५,
 १०; -वाः वीथी ३, ८: १४;
 १८, ४६: ६.
 सूर्य-विद्- -विदि या ७, २५.
 सूर्य-वैधावर-> सौर्यवैधावर-
 -रम् बृदे २, १६; वा ७, २३^३;
 २४^३.
 सौर्यवैध्यानी- -नी या
 ७, २३; २४.
 सौर्यवैधवारतीय- -रम् अय

२, १०, ८८; बृदे २, १७.
 सूर्य-वैधावरा(र-अ)सि- -धीनाम्
 बृदे २, १८.
 सूर्य-संस्तव- -रम् बृदे ३, ४४.
 सूर्यसंस्तव-संयुक्त- -रम् बृदे
 ३, ४२.
 सूर्य-रुम^०- -रम् आथी १०, १,
 २^१; वाथी १६, ५, १^२.
 सूर्य-समान-भा(रु>)सा- -०से
 विष ९९, ३.
 सूर्य-सालोक्य- -रयम् विष ९२,
 ११.
 सूर्य-सुव, ता^०- -ताः वाथ २८,
 १६; आथी ६, १२.
 सूर्य-सुम्भ^०- -ग्माः वीथीप्र १७:
 १३.
 सूर्य-सुव^०- -स्तुव काथी २३, २,
 ४; आपथी २०, २५, ८; द्विथी
 १४, ६, १९; वैताथी ३८, ११;
 सुम् ३, १४: २; १०; -स्तुवम्
 काथी १४, ५९, १; -स्तुवा आथी
 २, ८, ५; -स्तुति काथी १६,
 १५, ३; वैताथी ३९, १६; सुम्
 ३, १९२.
 सूर्य- (रु>)त्था- -स्त्याम् वीथी
 २५, १४: २; वाथी १, ६, १, १६;
 -स्त्याः वाथी १, ६, ३, २०.
 सूर्यस्य (रूप-) काथी १०, ११,
 १५.
 सूर्यः सवः^३ माथी २, ३, १, १२^३.
 सूर्य(र्व-अ)सु- -सुभिः अय २४,
 ५, ४.
 सूर्या(र्वा-अ)सि- -नी माथी २,
 १, २, ६^३; -ग्मयोः वीथी २०,

१२: ५.
 सूर्या-चन्द्रमस- पाय २, ४, १४;
 -चन्द्रमसा आथिष्ट ३, १, ३: २५;
 वीथी २, ७, २०; -मतोः वीथी
 १८, ३७: १९xx; वैथी;
 -मती वीथी २६, ११: १७;
 वाथी ४, ७७: १०xx; वीथी;
 वेथी ७; -मोम्भाम् आपथी
 १९, १६, २१^३.
 सौर्यवाचन्द्रम(रु>)सी^०-
 -सी बृदे ७, १२४.
 सूर्याचन्द्रमसोर-अयन- -रम्
 वीथी १८, ५३: २.
 सूर्या चन्द्रमस^०- -मयोः वीथी १८,
 ५३: २०; -साग्मात् अय ११,
 ३(२)१^३.
 सूर्या(र्व-अ)दि- -दयः अय ४१, ३,
 ११.
 सूर्या(र्व-अ)वह-साम- -सुति- -तिः
 बृदे ५, १०१.
 सूर्या(र्व-अ)विल- -लो बृदे ७, २८.
 सूर्या(र्व-अ)सुग- -गम् बृदे १, ७७.
 सूर्या(र्व-अ)भिसुख- -सः संप १०७.
 सूर्या(र्व-अ)भिसुख^०- -सः द्विष्ट
 १, १६, १५^३; वैष्ट १, १३: १६;
 द्विष्ट २, ४, ५१^३.
 सूर्या(र्व-अ)भिसुखत- -तः गोष्ट
 ३, ३, ३२^३.
 सूर्या(र्व-अ)भिसुखक- -कः^३ प्राय
 २, ५, ३५; वाथ २, १८; २०, ५.
 सूर्या(र्व-अ)निष्वाहार- -ने^३ वाथी
 १४, २४, ५; ३४, ४; ५९, २.
 सूर्या(र्व-अ)भ्युदित^०- -तः द्विष्ट १,
 १६, १४; गोष्ट ३, ३, ३२; वैष्ट;

a) यत्. b) वैष १ ६. c) पामे. वैष १ सूर्यस्यम् अ ८, ११, ७ द्वि. द. d) व्यप. e) उप. <√विद् (ज्ञाने). f) उप. = १सम- g) माय. (गो., धनेय(-)). उप. = २सुद- h) = एकाह- विशेष- i) पाठाः। उच्य. तै ३, १; ६, २ सूर्यस्य वे. द्विष्ट पाठाः। j) सूर्याषा इति संस्कृत्युः द्वि. k) परस्परं पामे. l) पामे. वृ ३०५ प्र. द.।

वाय १,१८; २०,४; द्विष २,४,
५०; गीध २३,२१.
सूर्या(र्व-ग)भ्युदित-निर्मुक्त- -गः
विष ५४,११.
सूर्याभास- -स्योः अत्रा ३,४,१.
सूर्या(र्व-ग)भ्यु-सम-म(भा>)
भ- -मन् विष १,४१.
सूर्या-विष्- -विषे अण १,८,१२.
सूर्ये(र्व-द)न्तु- -न्त्वोः वष १,५,८.
सूर्येन्तु-राहु-ग्रहण- -ये वैष २,
१२,३.
सूर्ये(र्व-द)न्द्र- -न्द्रो बृदे ५,८.
सूर्ये(र्व-द)न्द्र-बायु-पलंन्य- -ग्याः
अप ७०^०,१९,२.
सूर्यो(र्व-क)न्- -न्तः वैश्री १,१८:
२^०; -उम्^० आपथी ५,२५,५;
भाथी ५,१६,१४; वाथी १,५,
३,१५; द्विथी ६,५,२१.
सूर्यो(र्व-उ)दय- -वायु वैष ७,५:
११; -ये अण ७०^०,११,२२;
विष ९,३३.
सूर्योदय-वर्षन्त- -न्तः या १२,
५.
सूर्योदय-सम-म(भ>)मा-
-माः अण ६२,१५.
सूर्यो(र्व-उ)दयन-उस (ः) कौस ७,
१२.
✓सूर्य^० पाषा. भ्या. पर. प्रत्ये.
सूर्या^० -या अत्रा ३,५,११.
✓सूर्य^० पाषा.भ्या., छ. पर. गती, सारि
रुदे ७,१२८; सर>स अत्रा
७,२२१.
सिसिर्त्ति, सध्वि विष २,१४१.

रासार या ११,४८१; सतिपुः या
१४,३६.
सारयति या ५,४.
३सरथ- पा,पात्रा ३,१,१४६.
३सरत्- -गम् भाथी १२, ८, ४;
वाय ३, १७; माय १, २, १६;
ना ११,४२; -ग्याय या ५,२८;
९,४०; ११,२४; १२,९.
सरण-कर्मन्- -म्येणः या ६,१२.
सरण-जीविन्- -विनः अण ३,
८,१५.
सरणा(ण-भ)र्थ- -र्थम् अण ३०^०,
२,३.
✓सरण्य>सरण्यु- -पाठ ३,
८१.
२सरत्- पा ३, २, १५०; -गस्व
या ९,३; -गानि या ९,२०.
सराणि- पाठ २, १०२.
सुरिण्यत्- -रन्तः आपथी १८,
४, १४; वीथी ११, ७, १२३;
द्विथी १३, १, ४९; -रन्तम्^०
आपथी २,१३,१; वीथी.
सरिण्यन्तो- -न्तोः आपथी
८,८,२; वैथी १६,२५:२.
सतेपे वाया २,७२१.
ससम्बस- -वांसः आपथी १८, ५,
१; वीथी; -वांसम्^० काथी ३,
५,४; आपथी ३, ४, ७; वीथी
१,१९:५; भाथी; -सुपः भाति
२०.
सधुयो- -न्थोः आपथी ४, ५,
५; भाथी ४, ७, ३; द्विथी.
सवि- पात्रा ३, २, १७१.

सारपमाग- -गम् भाय ३,१२,१२.
सूर्य,भा- -गम् भापम १, ११,६;
वीष ४, २, ११; भाय २, ११:
१२; -ता वैष १, ११:४.
सति- -न्तोः काथी १९, ३, २८;
सुप २,३९०.
सखन्- पाठ ४,११४.
सरर- पा ३,२,१६३.
सथी- -सी वाथी ३,२,७,८४;
वैथी ११, ३:७; -माम् माय
२,७,११.
सथा वाथी २१,४,६; पाथी.
सुमर- पा ३,२,१६०.
सुक- पाठ ३, ४१; -कः अण ४८,
१०४१; निष २,२०१.
सुकण्ट,ण्डु- (>सार्कन्डेय-)
सुकि- ->सुकि-वट- -वयोः भाति
३,४,११:३३.
सुक- ->सुक-स्थान- -नम् भाति १,
१७.
सुकान्- पाठमो २,१,२८१; -कानम्
या ११,४२.
सुगल- -कः वाथी ३,२,६,२०१.
सुगाल- पाठमो २, ३, १०४; पाय
६,३,१०८.
सुगल-नकुल-भाजार्-मयूर-सर-
मठ-कुञ्जर- -रन्तम् सुप ३७.
सुगल-भ-वायस- -न्तः वीषि ३,
११,२.
सुगल(उ-भा)दि- -दिभिः वैष
३,८,१:३.
सुदल- ->सुदोदिर-
(>सार्कलोदि-).

a) वस.>दस. । b) वैष १ द. । c) उप. <✓विद्(ज्ञाने) । d) वस. । e) परररं पात्रे. ।
f) छ. BPG. 1 = ✓अण. । g) = वसुपा- (वैष १ द.). । h) या ६,३; ९,२६; १२,१४ या ३,१,५६; ७,२,१३
परमृष्टः द. । i) भाप. । j) कर्त्तृ कृत्. । k) पात्रे. वैष १ सरिण्यन्तम् द्वि. द. । l) पात्रे. वैष १ सुत्तौ
भा १९, ४७ द्वि द. । m) वृ ११६ f द. । n) = उदीपन-विशेष. । o) सपा. वीषि ३,१,१० कश्चिद्वयोः इति
पात्रे. । p) = श्यात- । श्यु. १ । <✓स दति पाठमो. । q) छ. पात्रम. । r) वृ २४३० b द. ।

सङ्घ- -नामि अण ४८, २००.
 ✓सङ्घ^१ पाषा. दिवा. आत्म.; द्वा. पर. विसर्गे, सङ्घते वीथी १८, ३१: १४; २०; ४२: ६; अण; सङ्घति वीथ १, ५, ३३; भाए २, २९: १३; कौसु; सङ्घन्वे आपथी २३, १, ५; हिथी १८, १, ६; सङ्घन्ति आपथी २, १३, ७०; अण ४२, ५, ३; वा ५, ४; सङ्घसि पाए ३, १५, १७; सङ्घामि या १०, ३००; सङ्घत् वीथी ८, १६, १०; सङ्घन्तु वैथ ३, १७: १; णिसङ्घ, > जा आपथी १९, २७, ९; वीथी १३, ३९: १५; माथी; सङ्घावहै वाए १४, १३०, असङ्घत वीथी १४, ७, १; वीथी; असङ्घत् या १, ७०० x; असङ्घत आपथी २१, ११, १-००; २३, १४, १४; १५; णिसङ्घी १६, ४, २७; २८; २९; सङ्घेत लाथी ९, ६, १७; सङ्घेत् वाथी ४, ३८८; अण १, १०, ७; वाच ५, ७; सङ्घेयु लाथी ८, ३, १४; ९, १३, १३; सङ्घेय वीथी १४, १: १; २; x x x; वाथी ४, २९: २.
 सङ्घने शीथी १५, ५, १; आपथी २१, १२, १०; ३; हिथी १६, ४, ३५०; अण; सङ्घने अण ४, १, २२; सङ्घर्जिण, सङ्घ पा ७, २, ६५; सङ्घा: वीथी १४, ८-९, १.
 सङ्घन्ते वीथी ८, ५: १५; ११, ६: ३-x-x; १२, ७: ४०; सङ्घयन्त वीथी १४, २३: १०;

वाथी ४, ८३: १; छट.
 णिसङ्घि आपथी १२, १७, ९; माथी २, ५, ३, ७; हिथी;
 णिसङ्घिअसङ्घि आपथी १२, २८, ५; वैथी; णिसङ्घत हिथी ९, ५, ४३; शीथी ८, ४, १३; जाथी ४, ८, १२; अणसङ्घ णिसङ्घ २, ९, ४६०; णिसङ्घम् छट १, १: १४; अण.
 सङ्घोर्ग(वरा).^२ - पाण ५, १, १०१; -सं: आपण २, २४, १२; हिथ २, ५, १७६; -संम् लाथी १०, ३, २०; -संर्गि: अण ४८, ७५०; निथ १, १२; वा १४, ११.
 सार्जिक- पा ५, १, १०१.
 सङ्घोर्ग-अणसङ्घ- -वात् लाथी १०, ३, ७.
 सिथसु- -सु: विथ १, १.
 सङ्घत्- -अन्त: अण ५२, १३, २.
 सङ्घती- -न्वो: वीथ १०७, १०.
 सङ्घ, टा- -ट: वाथी ४, ३०: १; अणसङ्घ २, ९; अण २७, १, ६०; आपण; -एत् अण ४, ७, २५; अण १, ६, ५; शेष ४११; भासि १०३; १०५; -णिसङ्घ आपथी ५, २, ४३; वीथी १, ७४ ८; -णिसङ्घ आपथी ५, १८, २; हिथी ९, ५, १६; वा १०, २१ x x; -टा: वीथी १४, ७, १; वाथी; -टा: शीथ १, १०५; -टात् या ७, २४०; -टासि वाथी ४, २९: १; -टात् या ७, २४०; -टेत्

वीथी २४, १२: १३; वाथी ३, ४२: ५.
 सङ्घि- -टि: वीथी १८, ४५: २६; ४७: २०; २९; -टी: वीथी १७, १०, १७; आपथी; वैथ १७; -टीनाम् वीथी २२, ८: ८; -टा वीथ १०९, ५०. सङ्घि-वाहाग^३ - -णम् निथ ४, ४: ६.
 सङ्घि-संहार-कारक- -००० विथ १, ५३.
 सङ्घि-संहार-कारण- -जे विथ २०, २०.
 सङ्घ(टि-अ)सङ्घ-ज- -जानाम् वीथ ४, २४.
 सङ्घा वीथी १५, ५, १; वाथी. सङ्घ- पा ३, २, ५९; पाण ४, ४, १२; ५, १, २०; सङ्घ आपथी ९, ४, ९; वाथी; सङ्घि: वीथी ३ २२; वैथ १, ७: ६; अण ३०, २, १; सङ्घ: वीथी १२, १४, १०; वैथी २: ११; पाए; सङ्घम् वीथी १५, ८, ८; २३ x x; आपथी १८, २०, १४०; वीथी; हिथी १३, ७, ३०.
 सङ्घि- -पा ४, ४, १२.
 णिसङ्घ-अणसङ्घ- -जे आपथी १४, ११, ३; वीथी १९, ७: ५७; हिथी १०, ६, ९.
 सङ्घ-गण-व(द>)ती- -रवा: वैथ ३, १२: ४.
 सङ्घ-वत् वीथ ४, २, १७; १०, ३, ६६.
 सङ्घ-विद्- -पा ५, २, १२१; -वी

a) अणसङ्घ-नामसङ्घ. b) शीथ २, १०२ वा ६, १, ५८; ८, २, ३६; ३, ११० पावा ३, १, ८७; ७, २, ११४ पराएट: द.। c) वीथि. घ २४७९ m द.। d) वैथ १ द.। e) = सङ्घि-। f) = उदर-। g) = अण-वाक-विशेष-। h) उर. = १ प्राण-। i) णिसङ्घि इति वीथि.। j) घ. पावा, सुष्-। इ. साम्ना इति सुष्- इति य पावि.। k) पावे. वैथ १, २०२३ k द.।

आपथी २२, १२, ९; द्विधी २४,
८, ३५; वीथ; चव्यु ४: १०.
सन्धिगी- -गीम् वीथ १,
१, २४.

सम्प- पा ५, १, २.

सृजत्- √सृज् इ.

सृज्य- > साअंय- -य: बाधुथी
४, ३०: १; ६; वेदे ५, १२४;
ईश्या २, ५०; १४, ५८;
-वस्य श्रम २, ६, ४०; -ने
श्रीथी १६, ११, ११.

सृणि- पाठ ४, ४९; -गि: निष ४,
२१; या ५, २८४; १३, ५;
-व्य: या ५, २८१; -व्या या
१३, ५१४.

सृणी(क>)का- पाठ ४, २३.

सृत्- सृति-, सृत्- , सृत्- , -री-,
सृत्वा √सृज् इ.

सृत्- पाठ ५, ४९.

सृत्वाहु- पाठ ३, ५८.

सृत्वाहु^३- (> सार्धाकव- | >
'कवापन- | पा.) पाठ ४, १,
१०४; १००.

√सृप् पाथा. भ्वा. पर. गती,
सर्पति आपथी १२, १०, ४;
वीथी; आपथ २, १४, ११०;
सर्पति आपथी ५, २, ६; ८, १३,
२३; साथी; सर्पत् नभाथी ५,
११, १; ५. साथी; असर्प: काथ
३६, ६१; सर्पत् आपथी ५, २, १०;
१२, १०, २; वाधुथी; सर्पत्तु:
वीथी १६, ९: २, ५; ५; लाथी.
सव्य: वीथी १६, ९: २१;

सम्प आथी ३, ११, ७१.

सरीसृप- -य: आपथी २, १०, ११;
-नीम् माथ २, १८, २; अया
३, ४, १; -वस्य या १३, ९;
-पाणाम् अप ६८, २, ४०;
-पाणि वीथी २४, ५: २१; अप
१; ११, ११; -पात् वीथी १५,
१६: ९; भाथ २, २२: १२१;
द्विथ १, ११, ८१; -वेग्य: वीथ
२, ८; ३३१.

सरीसृप गग- -गस्य अप ७०,
५, ५.

सरीसृपव- -वगम् पा ७, ४, ६५.

सर्पण- -गम् आथी ५, १३, २५;
काथी; -गस्य वीथी १६, ९: १;
-गात् काथी १२७; माथी;
या ६, १०; -ने आपथी ५, २, ४;
आपथी १३, ३, ८; ११, १; वीथी.
सर्पण-पुत्र- -त्रम् या ४, २६.
सर्पण-प्रसृति- -ति काथी २०,
५, २८.

सर्पण(ग-आ)दि- -दि काथी
१०, १, १.

सर्पत्- -यत: धाथी ८, १५, ८;
वीथी; -यताम् आपथी १४,
२६, ३; साथी; -यन्तु द्विथी
१०, ८, ४३; जैथी; -यन्त: वीथी
२३, ११: ६; जैथीका १०७;
द्राथी. ३, २, २५; लाथी.

सर्पित्- -रिण: अप ५२, ९, ४.

सव्य- -यन् वीथीका ७४.

सव्यत् (:) पा ३, ४, १०.

स्य,सा- -स्य द्विथ २, १०, २१;

-सा या ४, २६.

सृपन्- पाठमा ४, १५९.

सृप्- पाठ २, १३; -प्र: निष ४,
३१; -प्रम् या ६, १०४.

सृप्-कस्तन- -स्तम् याद; १०१.

सृप्-प्रहारिन्- -नी या ५, १२.

सृप्-व्य- -वयते लाथी ९, २, ९;

-व्यम् वीथी १५, १०: २१;

-व्यन्त: काथी २२, ८, १६;

वीथी १४, ५: ८.

सृपाकु- (> सार्धाकव- | > वा-
यन- | पा.) पाठ ४, १, १०४;
१००.

सृपाट- (> टी-पा.) पाठ ५, ५;
पाठ ४, १, ४१.

√सृम्, स्मृ^१ पाथा. भ्वा. पर. द्विथी.
सृम्- -म: गो २, १५.

सृमर- √सृ इ.

सृष्ट-, सृष्टि-, सृष्ट्वा √सृज् इ.

√सृ^२

√सृक् पाथा. भ्वा. आत्म. गती.

सेक- प्रम्, सैचर- √सिज् इ.

सेसेचन- (> टी-पा.) पाठ ४, १,
४१.

सेचालिन्- (> सेचालिन्-) केवा-
लिन् द्वि. इ.

सेतकी- (> सेतकेय-)

से(स^३-इ)तिकरण- -गम् 'क्रमा
१०, १२.

सेतु- प्रथ. सेव- √सि (भधा.) इ.

सेदि-, सेदिव्य- √सृ इ.

सेधत्- √सिज् इ.

सेधा- -या विष ४४, ३१०.

a) व्यय. 1 b) वेप १ इ. 1 c) वृ. पाठमा. 1 d) शीच २, १०२ पा ८, ३, ११० पराम्थ: इ. 1

e) पाणे. पृ १६८ च इ. 1 f) पाणे. वेप २, ३३. अस्तक तैवा १, ४, ३, ३ द्वि. इ. 1 g) शीधर्य पृ २३१६ इ

इ. 1 h) वय. प्र. = सवि- (इ. डु.) 1 i) पाणे. वेप १, १९०२० इ. 1 j) √सिज्, स्मृ इत्येके 1

k) पृ १६८ च इ. 1 l) पृ २१९० इ. 1 m) = वय- 1 n) = जन्तु-द्विथेय- | 'सु. १ | पृ २६५०

निर्देशोऽनेव समुचित: इ. 1 o) आदिच् इति जीतं. 1

से(सं-इ)धम- -धम् वैशु ३, ७: ५.
 से(सं-इ)धमन्- -ध्मा अप ७०^१, ११,
 १८.
 से(सं-इ)धमसंनहन- -न्म् भाषी
 २, १५, १९.
 सेनक- -कस्य पा ५, ४, ११२.
 सेनसृष्टाम् वाधुधी छ, २६^१: ४.
 सेना- पाठ ३, १०; पाठ छ, ३, ११८;
 पावाग ५, १, १२४^१; -नया
 भाषी ५, १, ५, १६; ६७; -मयो:
 भाषी ५, १, ९, १७; -ना आषधी
 २०, १९, ३^१; १३, ३, १४^१;
 २०, ७, १६; २२, २१, ७^१;
 वीथी; भाषी १०, १२, १३^१;
 -नृना: आषधी १, १२, १; ६,
 ५, ६, १०; वीथी १०, १४: २;
 -नाम्य: वाधी २, २, ३, ३; द्विथी
 १४, २, ४३; ६, १०×४; पाठ:
 -नाम् वीथी १४, १८: ५^१; वीथ
 १६, ४; अप १, १०, ६×४; अष
 छ, ३, १^१; आषधी २, ७, ३, १०,
 ३; -नाया: द्विथी १४, ७, २९^१;
 अप २, २, ५, ६३, ३, २; -नायाम्
 भाषी ५, १, ९, ३६; वीथ ३, ९,
 ४३; वाथ छ, ७, ४९; वाथ १३,
 १९; -नाये आषधी १, २४, १^१;
 वीथी; वाथ १३, १; -नासु
 अप ३, ३, ७; -ने वीथ १४, २७;
 १५, १५; अप छ, ३, १०×५^१.
 सेनक- पा छ, ३, ११८.
 सेनिक- वा छ, ४, ४५.
 सेन्य- वा छ, ४, ४५; वाका ५,
 १, १२४^१; -न्याह वाथ ३, ९,

१^१; -न्ये: अप ५१, ४, ४.
 सेन्य विद्वन्- -न्यम् अप ५८,
 १, ११.
 सेना(ना-आ)कम- -मेधु धीह १४,
 २८.
 सेना-चर- वा ३, २, १७.
 सेना(ना-अ)प्यह- -क्षम् अप ५,
 ५, ३.
 सेना-वी- -नी: वाधी ३, ३, ३, २२;
 छुम् ३, १०: ३२; भाथ २, २३:
 ७, १३; आष २, ९, ९, ११^१; साध
 १, ५३३; -नीम्य: वाधी २, २,
 ३, ३; -नीम् संघ ११६: २५^१;
 -न्या: काषी १५, ३, ३; वीथी
 १२, ५: २३; द्विथी १३, ४, ९;
 -न्ये वाधी ३, ३, ३, २२.
 सेना(ना-अ)प्यह- -न्याह पावा छ, १,
 ११४.
 सेनान्व लक्षण-कारि- -रिम्य: वा
 छ, १, ११२.
 सेना-पति- पाग छ, १, ८४^१; -तिम्
 अप ७२, २, ८; -तीनाम् अप
 छ, १, ७, ९; -ये: अप ६४, ३,
 ९; -ती वाप ६४, १०, ६×४.
 सेनापत्य- वा छ, १, ८४;
 -नयम् संघ ३, ११, ६; १२, ५.
 सेनापति-कुमार- -नायाम् अप
 ६३, ३, २.
 सेनापति-न्य- -नयम् अप ८, ४
 सेनापति-मय- -नयम् अप ६३,
 ३, ९.
 सेनापत्य- -नयम् अप ६८,
 २, ९.

सेना(ना-अ)भिरुही(त>)जा-
 -नाम् वैधी १२, १४: ६^१.
 सेना-मोहन- -ने अप ३, १,
 सेना संज्ञा- -शावाम् पावा छ, २,
 ४५.
 सेना-सुरा-पञ्जावा-शाका-निशा-
 -नालाम् वा २, ४, २५.
 सेना-हनव- -नम् अप ८, ८.
 सेना-
 ✓सेना^१ वा ३, १, २५.
 सेना-
 न्या: आपधी २२, २८,
 २३; वीथी १८, १७: २६; द्विथी
 २३, ४, ६२.
 से(सं-इ)न्द्रन्द्रा- -न्द्र: वीथी १७,
 ४०: ३; १८, २९: २३; वाथ
 ६, ५, ३^१; -न्द्रस्य आष २,
 ५, १०; आष ३, ९, १; वाथ छ, ३,
 २३; -न्द्रा वीथी १७, ४०: ४;
 -न्द्रा: वीथी १८, २९: २०; २२;
 -न्द्री वीथी १७, ४०: ३; ४^१.
 सेन्द्र-न्य- -न्याह वीथी १, १: ३^१.
 से(सं-इ)न्द्र-चाप- -न्य: अप ७०^१,
 ११, १२.
 से(सं-इ)न्द्रिय- पाग छ, ३, ११८^१;
 -य: वाप १, २९, १०; वीथ २,
 १, ४९; द्विथ १, ७, ६७; -पति
 वा १४, १०.
 सेन्द्रियक- वा छ, ३, ११८.
 सेन्द्रिय-न्य- -न्याह वीथी १८,
 ३०: ७.
 से(सं-इ)न्धन- -न्य: अप ७०^१,
 १९, ६.
 सेरिम- पाठमो २, २, २३२.
 सेर- ✓सि (१५१.) ६.

a) = व. १. b) वाप. सेधमसंनहनमूर्ध्वम् > भाषी २, १५, ४ संमार्गाद्य इति पाठे. c) अप. १.
 d) वैर १ ६. e) द्व. पागम. f) वा. वां सेनाभित्तरी विन्देत् <> सेनाभिरुहीणम् इति पाठे. g) परस्परं पाठे. h) = संघम. i) स्वार्थे प्र. j) मने पक् प्र. k) मने वा: प्र. उलं.
 (वा ५, १, १२६). l) वा ८, ३, ६५ परस्पर. ६. m) द्व. पाठ. n) सेरिण- इति भाष्य. पाठि,
 सेरिणी- इति पागम.

सैल् पाधा. भा. पर. गती.
सैलम् - भा: भाथी १०, ७, ६; १२, १, १७, - गान् भाथी १६, २, १७
सैल् पाधा. भा. क्षाम. सेवने,
 सेवते थ १, ३९, ३१; ४८, ११;
 थरां २, ३; शंष ४४९; या २,
 २, सेवति १५५ ४८, ४००; ५६;
 सेवन्ते या ७, २३; सेवताम् या
 ३, २१; ११, ४९; सेवत्व आपथ
 १, २२, ६; हिष १, ६, ६; या ३,
 २१; सेवेत् आपथ १, ३२, १८;
 विप ७१, ३; हिष १, ८, ६०.
 सेवक - का: थ ७०, ७, ९.
 सेवका - पावाग ७, ३, ४५.
 सेवन - न्म् थ ६८, ५, ११.
 सेवमान - न्: आपथ १, २७, ११;
 थ २, १, ४२; वाप; - नस्य या
 ३, २१.
 सेवा - न्म् या ६, २७; - वापथ
 थ ४८, ५६.
 सेवा-शुशल - पाग २, १, ४०६.
 सेवा मिरल - स: वाप २७०२.
 सेवि(त>)ग - स: वाप २८१:१
 सेवित क्षत्रिय - पाग २, २,
 २७.
 सेवित(त-थ)सेवित-प्रमाण-
 न्मु पा ६, १, १४५.
 सेवितन्व - न्म: या ११, ३१;
 - न्यम् या ८, ९.
 सेवि(र>)नी - न्य ३५६४, १, ९.
 सेवमान - न्म् विप १, ४३.
 सेव - पाग ३, १, १३४, - थान्

आपथी १८, ५, ३; वैथी १७,
 १४:३; हिथी १३, १, ६०.
सेपालिन् - (>सैपालिन्- पा.)
 पाग ४, २, ७७.
सेवाली - , सेवासी - (>ली, सी
 ✓क पा.) पाग १, ४, ६१.
से(स-र)थ(र>)रा - रा या २, ११.
से(स-र)थुक, पा - न्म् काथी १५,
 १, ३४; - का: काथी १५, ३, १९.
से(स-र)थु-धन्वन् - न्मा भाथी
 १४, ७२, ३.
से(स-र)थि - थि आपथी ५, २४,
 ९; भाथी ५, १६, ९; वैथी १,
 १६:१८; हिथी ३, ५, २८; मोम्
 १०, २, ४७
सेष्ठीयमाण - ✓सिम् थ.
सेहान - ✓सद् थ.
 ✓से पाधा. भा. पर. हये.
सैहकर्ण - सिहकर्ण - थ.
सैहकायन - सिहक - थ.
सैहकोष्ठ - सिहकोष्ठ - थ.
सै(स-र)क, का - कपा वेज्यो २२;
 - कावि थ ४, २.
सै(सक>)किका - का वेज्यो १२.
सैकत - सिकता - थ.
सै(स-र)क-वि-स(सक>)सिका -
 का वेज्यो ३१.
सैकयत - (>थय-विप^म - , थला-
 यनि^म - , यत्था^म - पा.)
सै(स-र)कार्येश - न्मे निम् १०, ६ :
 २३.
सै(स-र)कोन-चत्वारिंशच् -

छत - न्म् थ १४, १.
सैचालिन - सैचालिन् - थ.
सैतिक - न्कि: बोधोप ४४:३.
सैतकेय - सैती - थ.
सैधक - सिधक - थ.
सैनक - प्रम्. सेना - थ.
सै(स-र)न्द्रचापा(र-भा)सु (प>)
 धा^म - न्मा थ ६४, १, ८.
सैन्धव - प्रम् सिन्धु - थ.
सैन्धुमिषिका - सिन्धुमिष - थ.
सैन्य - सेना - थ.
सैरकापण - सीर - थ.
सैरिक - , सैरी - सीर - थ.
सैरिधक - सिरिध - थ.
सैरिध^म - न्मा: बोधोप ३५:१.
सैरिध^म (>रैरिधक-)
सैरिधक - सिरिध, थ - थ.
सैरिन्धी^म
सैर्य - सीर - थ.
सैस - सीस - थ.
सैहरेय - सीह - थ.
सैहमेळ^म - न्मा: बोधोप १७:११.
 ✓सौ पाधा. दिवा. पर. प्रन्तर्कर्मणि.
सो(स-ठ)न्य - न्मे थोथी ८, ३, ५
सो(स-ठ)क्यय - न्प्यम् बोथी २६,
 १६:५, ७.
सो(स-ठ)क्य - कपा: बोथी १०,
 १८:३.
सो(स-ठ)ध - न्मे: थ ३७, १, ११.
सोह - सोह - प्रम्. ✓सद् थ.
सोतृ - , सोह (:) ✓सु (प्रमिषे) थ.
सो(स-ठ)चर - राणि व ३, ९, ३.

a) = ✓सौल् । b) व २, ३३, थ. । c) धा. शशे गृणि: । d) तु. पागम. । e) < ✓सिम्
 इति पागम., < ✓सिम् वा ✓सिम् वेति P. व. प्रम् । f) थर्व: ? । g) सर्वात् इति पाठ: ? मदि, सोव:
 (तु. भाथी, ८. व) । h) सैचालिन् - इति पाठा. । i) = वस - । j) वस > वस. (तु. भाथम्) ।
 k) विप. (विपुल:) । l) विप. (पथि:) वस. > दस. । m) वृ २४३१ म् थ । n) वृ २४०२ द थ ।
 o) विप. (विपुल: ?) । वस > वस. । p) वप. । q) वृ २६१९ म् थ । r) या १, १७; ६, ९; २३; ८, ९
 पा २, ४, ७८; ६, ४, ६६; ६७; ६९; ७, ३, ३७, ४, ४०; ८, ३, ६५; १७ परावृत्त: थ. ।

सो(स-उ)त्तवेदि-दिम् काश्री
१,५,३,२४; -दिषु वीथी १९,
१० : ६०^१.

सो(स-उ)त्तरा(र-भा)च्छादन^२-
-नः आपय २,१९,१२.

सो(स-उ)त्तरा(र-भा)म्बर^३-रः
वैथीका छउ; -राः वैथीका
१३१.

सो(स-उ)त्सर्ग-नाम् कर ३,
८,१५.

सो(स-उ)त्तक,का--कः काश्री १६,
१४,४^१; वैथी; वाध १२,१४;
-कम् कौष्ट ४, २, ३; शांष्ट ४,
१५, १८; काष्ट २८, ३; माष्ट;
-का काश्री १०,१५,१; -कानि
आज्यो ४,११; -के आष्ट २,
८,५; -केन काश्री ४, २, ३४;
माश्री १,१,३,३५; वाश्री; वीथ
२, ४, ५.

सो(स-उ)त्तकविन्दु-न्दुभिः
कष्ट २,१,४.

सो(स-उ)त्तकभाजन-नाः वैथीका
१३०.

सो(स-उ)त्तकुम्भ-म्भम् विध
२०,२३; २१,२३.

सो(स-उ)त्तचन-नम् वीथी ६,
३४ : १०^१.

सो(स-उ)त्तञ्जन-नी काश्री ११९.
सोदन^४(-> लौदनेयक-)

सो(स-उ)त्तय-यः कष्टा २, १९;
-यम् विध ५, १२५.

१सो(स-उ)त्तर^५->सोदर्थ- पा ४,
४,१०९; -र्थः आपष्ट ५, ५;
कौष्ट १, ४, २५; आपय २,

१५,५; द्विष २, ५, ३४; -र्वाः
शंघ २९७; वीथ १, ५, ९५;
-र्वागाम वीथ २८,२६.

२सो(स-उ)त्तर^६-रः शंघ १८८;
१८९; विध १७, १५; -रत्य
विध १७,१५.

सो(स-उ)त्तर्क-कम् आपश्री १५,
१८,४; भाश्री ११, १८, ६.

सो(स-उ)त्तवसानीय-ये वाथी
३,४,५,२१^१.

सो(स-उ)त्तजत-जम् माशि २, ९;
वाशि १, ५१.

१सोत्तरवेदिकायाम् काश्रीसं २७;
१६.

सो(स-उ)त्तत्रुक्-कम् वीथी ७,
७ : १५.

सो(स-उ)त्तन्मा (र>)द्वा-द्वाम्
वाध १७,५५.

सो(स-उ)त्तपकरण-पाः वैथी १८,
२ : ३; -णम् काश्री २५,१५,१.

सो(स-उ)त्तपग्रह^१-हः कष्ट २,१,२.
सो(स-उ)त्तपचय-याम् वीथ २, २,
३५.

सो(स-उ)त्तप(धा>)ध-धः शुभ्रा
३,४६.

सो(स-उ)त्तपवान,ना-नम् वाथी
१,२,३,११; आपष्ट १२, ८;
भाष्ट; -ना काश्री २१,४,१९.

सो(स-उ)त्तपध्मात^१-नाम् वाशि २,
१३

सो(स-उ)त्तपना(मर>)मा^१-माः
वीथी १३, १ : ९.

सो(स-उ)त्तपयाम-माः वीथी २२,
१४ : २; २५, ३४ : ३; -मेव

वीथ ३, १२, ३.
सो(स-उ)त्तपर-रम् काश्री ६,३,५.
सो(स-उ)त्तपवसथ,था-थः वीथी
२४,३४ : १; -थाः वीथी २०,
२५ : २,३; -याम् माश्री १,
५,६,२४; -थं वीथी २९,८ : ६.

सो(स-उ)त्तपवास्त-स्तः कानिष्ट २,
७,९ : ४०; माष्ट ३,२१ : ३,५;
विध ९०, १९; २०; -सम् कष्ट
२८,३,३; -सैः आप २३, १९, ३.

सो(स-उ)त्तपवीत->तिद्-नी
वीथ ४,२ : ५; ५ : १५; वीथ २,
९,११.

सो(स-उ)त्तपशय,या-याम् वाथी
३, ४, ३, ११; -याम्^१ वीथी ७,
२ : १३; १४; ८, १० : १३.

सो(स-उ)त्तपसर्ग-सर्गम् पा ८, १,
५३; पावा ३, १, ७; -सैस्य
प वा ३, १, ७; ६, १, ७८; -सैस्य
पावा ३, १, १२; -सैस्य कष्टा १६,
१६.

सो(स-उ)त्तपहय-यम् काश्रीसं
३५ : ३.

सो(स-उ)त्तपांशुयाज-जः शशी
३, ९, ३.

सो(स-उ)त्तपानह-हम् आपय १,
६,१०; १४, २३; ३०, १८; द्विष.
सोपानह-क-कः वीथ १, २,
२४; वीथ २, ४५; -काः विध
८६, १३.

सो(स-उ)त्तपाय-यम् काश्री २, २,
३०; काश्री १, ६, २८.

सोभरि,री^१-रीः कष्ट २, ८, १९;
१०३; साध; -री कष्टा ३, ४,

a) = ४४. b) उव. कष्ट. c) पृ १९८८ b द. 1 d) = १५. e) क. 1 f) = सोदर्थ-1
g) वस. 1 h) वसनी इति पाठः इति. शोधः 1 i) उव. = [पुत्र-] मुदि- (त वीथी १, १०, ६) 1 j) उव.
= नायु- 1 k) उव. श्री. द. प्र. 1 l) उव. = पिधान-यात्र- (दकला इति नमा.) 1 m) व. त्रि. 1
n) वध. 1
वैद्व प्र-४४

१, -रे. वृदे १, ४८, ६, ५८.
 सोमर- न श्रम २, १०, १२७,
 शुभ ४, १८४, -रम् वाधो ९,
 ३, १, लाधो ७, २, १, शुम्, -रम्
 निम् ४, १० ५^०, -रे मीम् २,
 २, २८
 सोमरी^० - री श्रमा १७,
 ४१
 सोमर नामेध- चेलाधो ८, १,
 ८ निम् २, १२ ३८, ३, ३:
 २८, ३३, ३७
 सोमरनामेध-प्रसाध- न्वा
 लाधो ८, १, १२.
 सोम(वरा)^० - पाठ १, १४०, पाग
 ४, १, ४१, ३, १४२, ५ २,
 ६१, ८, ३, १०८, -०^०ग
 श्राधो १, ५, २९, ३५xx,
 लाधो, लाधो ५, १२, १०^०, २,
 ५, ४, २४^०, वृदे ६, ११३, -म.
 लाधो १, ५, २९^०, २, ९, १३,
 ११, २-४xx, १९, २१, ३, १,
 १५, १०, ७, ४, लाधो १, ८,
 ३xx, १६, ३, १०, लाधो
 ५, १२, ११xx, ७, ८, २^०,
 आपधो, दिधो ११, ७, ६५,
 ८, २१^०, लाधो ९, १०,
 १४^०, निम् २, ५ १८^०, २०^०,
 नृधाम १, ३, १^०, २, १, ८^०,
 ०२, ४^०, सु ११, १, २२, ४,
 पाए १, ४, १६^०xx हिध १, १५,
 १^०, २०, २^०, वैए १, १४ १४.

अर १, ५०, ९, ३६, १,
 ११xx, पाग १, ४५, २, २६,
 ३५ २८, ६, वीग १, ७, ११, २,
 २, ५८, ५, १६, विप ४८, ६,
 श्रम २, १, १८, १६xx,
 नाधि १, ५, १७, २, ७, ६^०,
 उनिम् ८ १८, वि ३, ६३,
 आजवो ५, १६, ७, १०, ८, १,
 वेजो ३२, ३९, -मम् लाधो
 १, ३, ८, १०, ४xx, लाधो १, ५,
 २xx, ७, ४, १२^०, लाधो,
 लाधो १२, २४, ४^०, वैधो १५
 ३१ १^०, दिधो ८, ७, ३७^०,
 सु ११, २, ३, १२, १, २xx,
 वैए १, ४ ९, वैए २, ९ ९,
 १४, व्य ४३, ५, ३५, वाध
 १, २३, शध ११६ २३,
 ४८, ६३, १४८, वीग २, ५,
 २३, -ममड मम् वीरी २२,
 १७ ९, -मस्य नृधामो ३,
 ६, २७, ४, १३, ७, ५, ५, ११^०,
 २७^०xx, लाधो ७, ३, ४^०,
 ८, ८, ५^०, लाधो, आपधो
 ४, १३, १^०, १९, ३, १^०,
 वैताधो १९, १०^०, आपम
 २, १, ३^०, आए १, १७,
 १०^०, आपिण २, २, ५ १२^०,
 आए ४०, ११^०, वाए ४,
 १२^०, वैए ३ २१ १४, वैए
 १, १९ १२, वीम् ४, १२, व्य
 १, ९, ७, ५०, १, २, ५, ५^० ६^०

पाग ३९ १७, आजवो ८, ३,
 -मा नृधामो ५, ५, १९xx
 लाधो, वीधो २४, ५ ६, -मा^०
 आपधो १०, २५, २, वीधो ६,
 १४ ३, २३, लाधो १०, १६
 १४, दिधो ७, २, ४८, -मम्
 लाधो ४, ३, ५, ५ ४, ४, १४,
 १, १४, आपधो, -मम् लाधो
 ३, ९, ३^०, ९, २, २, लाधो, लाधो
 २२, १०, ५^०, आपधो ११, १८,
 १०, १२, २३, ४xx, १४, २४,
 १४, २२, १०, ११, वीधो ७, १४
 ११xx, ८, १७ १६, १८, ४९,
 १३, लाधो २, ५, १, ३, २, २४,
 ३, ६, ५, दिधो ९, ३, ७, ३,
 ४९, १५ ६, १७, १७, ४, २१,
 २५ वैताधो १२ १५, -मागम्
 नृधामो ३, ९, ३xx, लाधो ८,
 ८, ४^०xx, लाधो १, ११, १८,
 १२, ६, १३, आपधो, लाधो
 २८ १४, २४, २९ १२,
 वीधो ८, १५ १५, १७, १०
 ११, २४, ५, ६, २९ १ १३,
 लाधो २, ५, २ २९, ३, ३, २३,
 वाधो ४ ९५ ४, ५ लाधो
 ३, ४, ३, २०, वैधो १, ३ ६,
 दिधो ७, १, ६, वैताधो २६
 १६, वा ६, १० मीम् ११, ३,
 ४५, -माधवाम् वीधो १७,
 ५६ १, -माय लाधो २, ६
 १२^०, लाधो ३, १६, २xx, ५

a) = साम-विशेष-। b) = ऋच् । c) पाग (चन्द्र, ग्रह विशेष, वायु सप्त प्रग), व्यप (शक्ति, देवता-प्रसू) । वैप १ ६ । d) पागे वैप १ सोम श्र १, ११, १२ टि ६ । e) पागे वैप १, १२७२ ७ ६ । f) पागे वैप २ ३४ माश ३ ३, ३ १ टि ६ । g) पाठ १ सोमे इति शोध (तु मै २, १३, १३) । h) पागे वैप १ सोम श्र १, १६४, ३५ टि ६ । i) शोध पृ १५४५० ६ । j) पागे वैप १ सोम श्र १०, ८५, ४० टि ६ । k) पागे पृ २२७७ ४ ६ । l) पागे वैप १, ८११ ३ ६ । m) परस्पर पागे । n) पागे वैप १ सोमानाम् श्र ४, ४७, २ टि ६ । o) पागे वैप १ सोम वाठ ५, ४ टि ६ । p) पागे वैप १ सोमरथ शी ६, ६८, ३ टि ६ ।

६, १, १५ १४, ४, काशी ४, १, ६,
 ५, ८, १०, ९, ५, ७, ९, १३,
 ८२ ३१ ७ ४, १५ ४, ८,
 वापश्री १ ८, ३१, २, १८ ५×५,
 ८, २१, ३, काठश्री ८६ वीश्री १,
 १६ = २१×५, ६, १६ १, १३,
 २६, १२, २५, १७ १४, २६
 १२, २६, ११ ७, २७ ३ १२,
 भाश्री १, ८, १×५ ८ १५, १४,
 माश्री १ १, २, १७×५, ६, ४,
 ५ ७, ६, ६ काश्री ४, ५२ ३,
 वाश्री १, २, ३ १२, ७, ४, १२,
 ३९, वैश्री ६, ७ १×५, २, ४
 १२, १२ ४ १६, द्विश्री २, २,
 ३६×५, ५ ४, १४, १८, ६०,
 द्राश्री, वैशाश्री ९ ८, आश्री १, २,
 २, वैश्री ६६ १३, आश्री १, २,
 ३ ८, १०, ६, १ ३१, ३
 ४८, २, ५, १ १५, १८, १४, ३४,
 ४, ४४, काश्री ५४, १, १४,
 काश्री ३९ १२, वीश्री ३, ९,
 ३, माश्री ३, ९ ८, माश्री २ ३,
 १२, वाश्री १७, ४, ६, वैश्री २
 १२ १३, ३, ७ ३, १२,
 २० ३, ४, १४ १२, जैश्री २,
 ९ १२, २३, २६, २९, ३३,
 वाश्री ८, १०, -पुंसास आश्री
 ६, ५, २४, ७ ६, २, वाश्री,
 -मे आश्री १, ४, २, ११, १८,
 ३, १, २३×५, वाश्री ३, १४,
 १९, २१, १, ४, ८, १५,
 १५, वाश्री १, २, १२, ३, ३,

१०, ४, ४, १८×५, वापश्री
 २, १५ ५, काशीस, वाश्री १ १,
 ६, १, अश्री २०, ४, ३, राश्री १४२,
 -मेऽमे अश्री ५, २८, -मेन
 वाश्री २ १, १५, २०, ५×५,
 वाश्री काशी ५, २, ११, ५, राश्री
 ११५, अश्री ५, १७, -पुंसास
 वापश्री १४, ३२, ५, माश्री,
 -मेऽमे वाश्री १, १२, ३१, २,
 १७, ३, ६, ४, १०, वाश्री, वीश्री
 २५, १ ११, २६, २९ ८,
 वैश्री १६ ५ ८, द्विश्री १३, ३,
 ६, -मे वापश्री १४ ४, १०,
 वीश्री -मे वाश्री १५ १३,
 १, वापश्री १४, १९ १०, ३०,
 २, १८, १२, ३, काशीस

सोमो- वा ४, १ ४१

सोम- वा ५, २, ६१

सोमिक- क वापश्री ८, ७,
 १२, ८, १३, माश्री ८ १, ५,
 १०, १२, माश्री ४, २, २१,
 वैश्री १४, ५ १, काश्री ७, ३४,
 -क वाश्री ५ २०, ६, वापश्री,
 -का वापश्री २२, ११, १३,
 वाश्री १५ ९, २८, -का
 वीश्री १९, १ ४, -का
 वापश्री १२ ३, ८, -कानि
 अश्री ६, १, -के वाश्री १,
 १२, २९, वीश्री २१, ८ ३५
 वीश्री ४, २, २०, -केन द्विश्री

५ २, ६३, १३, ८, ३९, -केन
 द्विश्री ७, १, १९, -के वाश्री
 १४, १०, २२, वैश्री २१, ७ : ७
 सौमिकी- की वीश्री
 १९, १ ८, माश्री ४ २, २,
 -की वाश्री १, ५, ३१,
 -क वाश्री २, १५, ३, -क
 वापश्री १९ १, १४, १०, काशीस
 २५ १, ३, द्विश्री १३, ८,
 ११, वापश्री ५, १, १०, द्विश्री
 २, ७, १९, १०

सौमिक-वेदि-

लुश्री- वे वैश्री ११, ३, १०

सौमिक-वत् वैश्री ८, १४

७

सौमिक(क-व)वत्प-

-वत् वैश्री ८, १४ : ३

सौमिक-माश्री- वा ४, २, ३०,

-वत् वाश्री २, ९, ८, ५, ३,

२३, १२, ५, १३, वाश्री, द्विश्री

९ ८ ४, १, ३, १९, १३,

वाश्री १, ११, १७, १३, अश्री २,

१०, १०, १, वा १४ ६, वाश्री

१, १०, -वत् वाश्री ५, १९,

४, १२, ८, ३५, वाश्री, वापश्री

१४, ७, १९, वाश्री ६, १, ६,

अश्री २, ४, १, ९, ७, पुंसास १,

२७, १३, -वत् वापश्री ३, ५, ३

२४, वीश्री २, २, २, -वत्

वाश्री ५, १९, १, वाश्री ३, १२,

६×५, वाश्री, माश्री ७, २, ७,

द्विश्री ४, १, २९, वीश्री १, १,

७) पाणि वेदि १ स्तोत्रेण मा ३, ५३ टि द । ८) पाणि वृ २४७९ अ ३ । ९) विप (वत्प, मात-
 प्रम्) । तस्येदमाथर्षे प्र । ८) विप (वेदि, भात-वी-प्रम्) वाप (द्वि-टि) । ९) वत्प सौमिक्या वे<>
 सौमिक्ये इति पाठ । १०) वत्प > वत् । एत एतद्वय एतद्वय । ११) विप (वत्, वत्, वत् प्रम्),
 माप । एतद्वयदेवताथर्षे प्र । १२) पाणि वेदि १ स्तोत्रेण मा ३, ५३ टि द । १३) परत्पर पाणि । १४) वत्प,
 वाश्री २, १०, १ सौमिक्य इति पाठ । १५) सो इति पाठ ? वत्प वीश्री । १६) सौम्या इति द । १७) पाणि,
 वृ ११११ द ।

१४५^१, -म्या सुट ६, २९, ७१,
 ७, ९२, अम १, २०, ६, १६,
 १९, -म्याइम् वीथी ८, १४ १,
 -म्या जाथी ३ ८, ३^०, आपथी
 २० १४, ७^१, वीथी, दिथी १४,
 ३, १६^१, णामिण्ड ३, १ १ :
 ८^१, ३ ३४^०, -म्याव आपथी
 ६ १९, ११, वैण्ड ३, १६ १४,
 -म्याव अम २ १२, -म्यानाम
 माण्ड ३, ८ ५^१, -म्यानिवाथी
 ३, ४, १, ५३, वैथी २१, १ १
 आमिण्ड १, २, १ ११, वीण्ड,
 -म्याव वीथी ५ १ १९,
 वाधुथी ४, १०३^३ ८, वीथी २६,
 १२^१ -म्यावाम^१ अम ५९ १, ७,
 -म्याव * आमिण्ड ३ १, ३ ३^१,
 ४, -म्ये अ पथी १९, १५, १०,
 आथी ३ ३ १६, वीथी, वैण्ड २,
 १० १^० विथ ७८, १०^१,
 आण्णो ३, ४^१, -म्येन आथी ३,
 ३, १०, १० ६, ७, ११ १२, ६,
 ४, आपथी -म्येव आथी
 ६ ११, १६, नाथी २ ७ १०,
 वीण्ड ३ १० ६^१ अण्ड २ १४,
 ७^१ -म्येण्ड अम २५ १, ८,
 -म्ये आपथी १४, २६, १^१,
 दिथी १५ ६, २९^१, अम ६८,
 ३, ५^३ -म्यौ साअ २, ५१०
 सोमि- -मी आथी ३,
 १२, १, आपण्ड ९ ५^१, गोण्ड २,
 ६, ७^१ सुदे ५ ४१, ४४, सुअ

-मोमि आपथी १३, २०, ८,
 १९, ३, ८^१, वैथी ११, ५ ९,
 -मोम्याम् माथी ६, १, ६, ११,
 दिथी ११, ६, ६०, -मीम्
 आपथी २२, २५ ११, वीथी,
 सुअ १, ३५४^१, ४६८^१, -म्य
 अम २, ६, ४७, ७, १०४, १०,
 १७, सुदे ३, १११, साअ १,
 ४३६, -म्या आपथी २२,
 २५ १२, वीथी १६, ६ १२,
 वैथी, -म्याम्^१ अम ५९, १, १८,
 -म्यौ सुअ ३, ७५, साअ २,
 ७८८,

सौम्य-परीण्या^१- -ज्यावाः
 काथी २ २९ ८

सौम्य-विहार- -नाम् वीथी
 २७, १४, २३

सौम्य-गत- -सस्य वैण्ड २,
 १० ३.

सौम्य-सावित्र- -श्री वीथी
 ३, १३, ७

सौम्या(म्य-आण्णो >)
 मण्ड- -म्यम् वीथी १ १८९

सौम्य(म्य-आ)दि^१- दि
 वैण्ड १, १५ ५ अम ७०^१, ११,
 २१^१

सौम्या(म्य-अ)ण्ड- -रस्य
 वैथी १०, १ १२^१

सौम्या(म्या-अ)ण्ड- -मण्ड
 वैण्ड १ १५ ४

सौम्या(म्य-आ)दिथय-

-नाथी मीम् १२, ३, १२
 सोम-क^०- -वा सुअ २, १८, -म्य
 अम २, ४, १५, सुदे ४, १२९
 सोम-कर(ण >)णी^०- -ण्णा
 आपथी १२, ७, १०, -पया
 आपथी १२ ७, १६

सोम-वर्मण्ड- -मै या ५, १२.

सोम-वृण्ड- -नाम् वा ११, १२.

सोम-वृण्ड- -नाम् वा ११, १२.
 सोम-वृण्ड- -नाम् वा ११, १२.

सोम-वृण्ड- -नाम् वा ११, १२.
 -ण्डेण्ड अम ६, ९

सोम-वृण्ड- -म्ये वैथी २०, ४, ४.

सोम-कान- -मम् आथी ५, ५,
 १९^१

सोम-कारिण्ड- -रिण्ण अम ३,
 १०

सोम-कारिण्ड- -रिण्ण अम ३, ४.

सोम-काल- -ले मीम् ११, ३, १६.

सोम-कण्ड- -ण्ण काथी २२, ३,
 ३९, आपथी २२ २, १५, दिथी

१७, १, ३८, -णा वीथी ६,
 १५ १६^१, -ण्ण माथी २,

१, ४, ११, -ण्ण आपथी १०,
 २६, १५ वीथी ६, १५ १४,
 माथी १०, १७, २१, माथी,

-ण्णाम् आपथी १०, २७, ४,
 -मे अम ३, १२, -ण्ण वीथी

२२, १८ ३, २० १२
 सोम-कण्णणी^०- -मी वीथी

७ ६, १२, ४, आपथी १०, २२,

०) सया अ १०, १२, १ सोम्युस्य इति पामे । ०) अय इति आत ४ । ८) पामे वैप १ सौम्य
 मा २९ ५८ टि द । ८) पामे वैप १ सौम्यास शौ १८, ४, ६२ टि द । ०) सया साता १, २, ५ पुरपाप
 इति पामे । १) = तसरा दिश- । १) सया हिए २ १२, २^१ सौम्यास इति पामे । १) = मण-विशेष- ।
 १) = (सोम देवत्व) मण्णवरो मण्ड । १) = सुहृत् विरेप । १) सौ इति पाठ / गनि सोध । १) पस
 (व वीथी २१, २३ १०) । १) १५३४ परिययाण इति मेषम् । १) वत । १) पामे १३३ १ द ।
 ०) अय । सयायां कन् प्र । १) = मण्ण विरेप- । १) वैप १ द । १) सया दे ४, ४, १, १
 सोम-कण्णण्णम् इति पामे ।

५,४, २१,४,६,२२,४ ६,१५,
३, बीधौ, हिथौ १६, १, ११^६,
१७, २, ८^६, सुष १, २६८;
-मीम् आपथौ १०, २२, ७, ८;
२३, ७, २७, ५, वाठथौ, -ण्वा
काथौ ७, ६, २४, आपथौ १०,
२३, ६, बीधौ, -ण्वा सुष १,
२६९; -ण्यै बीधौ १४, ३: १,
२०, २ · २४××

सोमक्रयण्य (यी अ)

विधिवान्य(वी-वा)नृष-ण्य-
-ण्वा बीधौ २५, ४ · १०.

सोमक्रयणी पद^६ - दम्

काथौ ८, ६, ३०.

सोमक्रयण-काला(ल-त्रा)दि-
-दि बीधौका ३७

सोम क्रपा(ग-अ)थै- -थैम् बीधौ
१२, १५: १.

सोम-कपिन्- -वी भाथौ १०, १६,
१६.

सोम गन्धर्व-थिदि- -दिमि. वाघ
२८, ५

सोम गोपा^६ - -वा धापन् २, ११,
२७^६.

सोम-ग्रह- -ह अशाय २, ५, -हम्
आपथौ १२, २, ३, ७, १०,
बीधौ १४, २२ ३, ४, २५, १७ ·

८, हिथौ, -हान् आपथौ १८,
२, ३, ९, ६, १६, ७, ७, बीधौ,
-हेर्य वाधुथौ ३, ६१ ९, -वै-

आपथौ १८, २, ७, ७, १-३,
वाधौ ३ १, २, ३६, वैथौ

सोमग्रह-काल- -ले हिथौ १३,
१, १६.

सोमग्रह-पात्र- -त्राणि आपथौ

१८, १, १५, वैथौ १७, ९, १,
हिथौ १३, १, १५

सोमग्रह मन्त्र- -त्रेण वैथौ
१७ १०, ३.

सोम-ग्रह(न>)णी- -णी: बीधौ
२५, १३ - १३

सोम प्रारद्- -ग्नि निष् ६, १२:
२५

सोम-शुत-कुल्या- -ल्यामि वप्र
२, ४, १४.

सोम-चमस- -स: आथौ ९, ७,
३८, वाथौ १४, १६, ५, काथौ

२२, ८ २०, बीधौ, -सम् बीधौ
२३, १८ · ३८, -साव् वेताथौ

२३, १४, -सेयु वैथौ १५,
३१: ४

सोम च्युत्^६ - -तम् बीधौ ८, ५:
२०, हिथौ १०, ४, ४३.

सोम जम्बन्- -ण ५ ४, १२५

सोम-हृष्ट^६ - -हम् अथ २, ३६^६.

सोम तन्- -न् अशाय ३ ८.
सोम त्वद्- -टारौ आपथौ ३, ८,
१०, ७, २७, १०

सोम दर्म-केरानी युष्ट काशा-
मशिव्यौ-वदर हरित्र^६ - -दम्
कौसू ३८, १

सोम दाह- -हे काथौ २५, १४,
२७.

सोम देवता- -तानाम् मीम्
११, ३, ५२.

सोम देव(त>)ता^६ - -ता वृदे ७,
८३.

सोम-दैवत्य, स्या- -र्यम् यल्यु ४:
२१, -त्वा वंश २, २, १५^६.

सोम-द्रव्य-वत्(>)ती- -तीमि:

वैथौ १६, २६: १.

सोम-धर्म- -र्म: आपथौ १२, ७,
१६, -र्म आपथौ १२, ७, १५

सोम धर्मा(र्म-अ)पन्- -मेयु अप
७३, १६, ५

सोम धान^६ - -ना माथौ २, ३,
७, ६

सोम निवपना(न-आ)दि- -दि
काथौ १७, ३, ९

सोम-प^६ - -प आपथौ १४, १४,
१२^२, २०, २ ११^६, वाधुथौ,
-पम् आपथौ २०, ३, १०, बीधौ,
वाथौ ३, ४, १, १४, हिथौ १४,
१, २२, -पयो. आपथौ २०, २,
१०, वाथौ ३, ४, १, १४, हिथौ

१४, १, २२, २३, -वा काथौ
२५, ९, ७, आपथौ १८, २१,
३, ५, हिथौ १३, ७, १३, -पान्
अप ४३, ५, ३१, -पानाम् वाथौ

१५, ८, १६, -पिरेम्य. काथौ ६,
११, १६, शाथौ, -पौ आपथौ
२०, २, ११, हिथौ १४, १, २३,
अप

सोम-पथि- -पिम् वृदे ७, ५८^६,
-पिं-वे काथौ १०, ३, ८, १४,
३३, २२.

सोम परिधयण- -णम् आपथौ
१३, २२, ३, वैथौ १६, २४: २,
२६ · ९, हिथौ १०, ५, २१.

सोम-पर्व^६ - -र्णाद् आपथौ ५, २,
४^६.

सोम-पर्वामहन^६ - -नम् काथौ ७,
७, ११, -नात् काथौ ७, ७, ४;
-नेन काथौ ७, ९, ८.

सोम-पर्व- -वा काथौ ७, ६, ४.

a) 'मवि' इति पाठ ? यदि सोध. (वृ. आपथौ) । b) 'मवि'. इति पाठ ? यदि. सोध (वृ आपथौ) । c) उप. = परपाणु- । d) वैप १ द. । e) समाहारे द्रव. । देहानी- = सोधवि- इति दारित । f) वस । g) सो- इति पाठ ! यदि. सोध । h) उप. < ✓ पा (पनि) । i) ध्वप. । j) = सोमोष्णीप- ।

वाधो; -जिनम् माधो २, २, ५,
१७; -जिनम् माधो १, २, १,
३४^१; -नी काधो ४, २, ४५;
आपधो ६, १५, १३; ११, २०,
१२^१xx; वीधो.

सोम पाठ्या- न्यासु माधो ७,
३, ४.

सोम-राज^१- वास्य चाभ ३ : ७.

सोमराज्य- ००ज्य आधो

१२, ११, १.

सोमराज-क^१- कानाम् आधो

१२, ११, १०.

सोम-राजन्^१- ज्ञानः द्राधो ३, २,

३४; लाधो १, १०, २४; काध

२४ १२^१.

सोमराजो- शीः कौत् १३५,

९; अय ३२, १, ३१; -शीम्वः

कौत् १३५, १^१.

सोम-रुद्र^१- पाग २, २, ३१.

सोम-रूप- पम् वीधो ३, २ :

१३; -पाणि वैताधो ११, ६;

वैध ३, २, १ : १३; अपाव ३, १;

-वेयु अपाव ६, ८.

सोम-लिप्त- सम् काधो १०, ८,

१४; ९, ६; वीधो ८, १९ : ७;

२० : ११; वैधो १६, २३ : ३;

२५ : १४; द्विधो ९, ५, १२;

-साणि आपधो १३, १९, ६;

२०, १२; वीधो १४, २६ : १७;

माधो २, ५, ४, २३; ३०; वैताधो

२३, २१.

सोम-वत् वाधो १२, २, २, ५, १७;

जैधोका १६; काध ७, १७;

नाधि १, ५, १०.

सोम-वत्- न्यासु माधो ३, १६,

५; काधो १५, १०, १६; १२, ३,

२४; -वति काधो १०, ४, ९;

-वद्भ्यः काधो ३, १६, २;

काधो ५, ८, ९; ९, ३; भाधो

२०, १४, १३^१; द्विधो १४, ३,

१८^१; वैताधो; -वन्तः आधो

२, १९, २१.

सोमवशी- शीनाम्, -रयः निम्

, ८, १ : ३४; -र्यै वाधुधो ४,

४४ : २^१.

सोम-वर्ष^१- चंसम् वीधो १७,

४१ : ८; १६; आमिध १, ३, ४ :

२; १०.

सोम-वर्त^१- नम् द्राधो १, २,

२३; १४, १, ११; १६; लाधो १,

२, १७; ५, ५, ८; १४.

सोम वामिन्^२- मिनाः आपधो

१२, १, १९; २, २, ६, १२; माधो;

-मिनम् आपधो १९, ४, ११;

द्विधो १३, ८, ४४; १७, ४, २३;

-मिने वीधो २७, ५ : ८; -मी

आपधो १४, ३०, ७; वीधो १३,

१५ : १; ३; वैधो.

सोम-वाय्व(यु-व)सि-नुयस- लैः

वृदे २, २.

सोम-वार- रे आमिध २, ७, ६ :

२१.

सोम-वाह^१- दानाम् वीधो ५० :

१; वैप ४, ८, ४.

सोमवाह- ००ह काधो १२,

१५, ३^१; वीधो ५० : ३;

वैप ४, ८, ४; -हः आधो १२,

१५, ३^१.

सोमवाह-वत् वीधो ५० : ३;

वैप ४, ८, ४.

सोम-वाहन^१- नम् वीधो ६, १० :

४; २१; १५ : १८xx; वैधो;

-दो वीधो ६, १० : ४xx; वैधो

१२, १९ : २५.

सोम-विकार- राः मीत् ५, ४, २६,

सोम-विमपिन्- विणः आपधो

१०, २६, १०; १५; माधो;

-विणम् काधो ७, ८, १६; २२;

आपधो १०, २०, १४^१xx;

वीधो; -पिणिण आपधो १०,

२६, १४; वीधो ६, १५ : १४;

माधो; -पिणे वीधो १३, ६, २;

आपधो १०, २५, १; १४, २४,

११; माधो; -पिंविन् आपधो

१०, २०, १५; २५, २, काधो;

-वी काधो ७, ८, ३, ५; ७; १३;

१८; आपधो.

सोम-विद्या-वज^१- जम् मीत् ६,

२, ३३.

सोम-वि(धा>)व^१- वः आपधो

७, २८, १^१.

सोम विरयं- ये अय ५१, ३, ५.

सोम-विशेष- नाः अय ७२, ३, ६.

सोम-वृद्धि-वर्धन- नम् वाध २१,

३३.

सोम वर^१- ले जैधोका ६५.

सोमवाकि- कै वीधो ८, २४,

१४.

सोम-वत्- वः मीत् ८, २, ६.

सोम-वर्त^१- र्मिणः नाधि १, १०;

नाधि २, २, ८; -र्मिणम् वीध

२, ५, ३.

सोम-वृद्धि-वर्धन- न्याय आमिध

१, २, २ : १९; वीध ३, ९, ५;

द्विध २, ११ : ६.

a) व्यप. । b) स्थधे प्र. । c) जकीनाम् इति काम. । d) यत्. । e) तु. पागम्. । f) पाने.
वैप १ सोमवत्ताम् मा २४, १८, टि. द. । g) अय. अरयो ह्य. । h) वैप १ द. । i) सो^१ इति पाठः इ मनि.
शोधः । j) समवाये इव. । k) = साम-विशेष- ।

सौम सुमित्त^० - विमगे षीष्ट
 ३, १, ५, माष्ट ३, १० : ४.
 सौम शोमित्त^० - त विष १, ६.
 सौम-ध्वत्^० - वसे माष्ट ३,
 १० : ४०.
 सौम-संयोग - नात् षीष्ट १, ४,
 २०.
 सौम-ससव^० - वे वैश्री २१, ५.
 १०.
 सौम-सं (त्वा >) स्व^० - स्वम्
 वीश्री १७, ५१ : १९, ५२ : १३ ;
 ५३ : १४.
 सौम सस्था - सथा. वीश्री २७,
 ४. २, ७-९, २६, १ : २ ;
 शश्री, -स्थानम् वीश्री २७,
 ४. ११.
 सौमसत्सर्^० - स माति १३, ७.
 सौम-सपद् - पत् श्रुष २, ३०६
 सौम-रापादिन् - दिन वा ११,
 १८, १९. -दिने वा २, २५
 सौम-नरा(ण >) जो - जो आपथी
 १० १, ५ माथ्री १०, ९, ४,
 द्वित्री ७, १, १३
 सौम सव^० - स आपथी २२, ३५,
 ९, वीश्री १८, ५ २०, २७,
 ११ : २, द्वित्री २३, ४, ५, -वेन
 वीश्री १८, ५ १, १४
 सौम सामन्^० - स शश्री ९, ३, ३,
 त शी ३, ६, २१ x x, जिन्,
 -मानि जश्री २७ : ९, वैश्रीका
 १०३, -श लश्री ७ १०, १२
 सौमसामा(म-अ)दिक् - क
 वप्र १, ३, ८
 सौमसामा(म-अ)दिक् - नात्

लाथी १०, ३, १२.
 सौम-सुत् - पा ३, ९, ९०; -सुत्
 आथी २, १, ५
 सौम-सुत्^० - ते आथी ६, १२.
 सौम-सुत्^० - तिव् श्रान् ८, २१.
 सौमसुत्^० - दमः श्रुष १,
 १३२.
 सौम-सुत्^० - र्याः वृदे ८, १०५.
 सौमसुत्^०(वै-श्री)श्रु - मा. क्त - नै.
 विप २३, ४०.
 सौम-सुत्^० - चरित - तम् वेज्यो
 ७५
 सौम-स्वन्दन - ने वैश्री २१, १५ : ३
 सौमस्वन्दन^० - म्मा वीश्रीप्र १७ :
 १३.
 सौम-स्तुति - ति श्रुष १, ४५३,
 ४५४.
 सौम स्थाली - लीन्यः आपथी १३,
 १९, ६, माथ्री २, ५, ४, २३,
 द्वित्री, -लीपु माथ्री २, ५, ५,
 ११; वैश्री १६, २७ : १६, द्वित्री
 ९ ६, १८.
 सौम-रुष्ट - तम् वन २३, १३, ३
 सौमस्य-वत्^० - तम् जैश्री २७, ६,
 ८७, जैश्रीका ८१७
 सौम हात्^० - राः सु १९, १, २१, ४
 सौमा (म श) श्रु (वरा) - श्रु
 शीत् १६, ५, -श्रुम् वाथ्री ३,
 ४१ : २९, ३१, शीष्ट १, १२, ८,
 शीष्ट १, २०, ३, पाष्ट १, १४, ४,
 वीम् १६, ३^१, -श्रुत् आथ्री ५,
 १२, ७, वीम् २७, ४
 सौमा (म श) मि - मिम् वज ३,
 १५

सौमा (म-अ) त - श्रुम् पाथ्री १०,
 ९, २९; १६, १, १, -ने शश्रीसं
 ३३ : १५; -नेम्य माथ्री १०,
 ८, १६; वैश्री १२, १२ : ८.
 सौमा (म-अ) श्रुत्^० - रसाम् वाष
 ५१.
 सौमा (म-अ) श्रुत्^० - त. वीश्री
 १३, २५ : ३^१; १७, ३४ :
 ४, ३५ : ९ x x; माथ्री; -तम्
 आपथी १९, ४, ११; द्वित्री १३,
 ८, ४४, १७, ४, २४; लाथी ८,
 १०, ७, -तस्य आपथी १९, १,
 १९ २, २; ६, १२, माथ्री, -ताप
 वीश्री २७, ५. ८.
 सौमा (म-अ) श्रुत्^० - त आथ्री १९,
 ३, २५, वंताथ्री ३०, १, -तस्य
 पाथ्री १५, १०, १९; १९, ९,
 १० x x, वंताथ्री ३०, ७.
 सौमा (म-अ) श्रुत्^० - तम् काथ्री,
 १७५, -के आथ्री ६, ७, ३.
 सौमा (म-अ) श्रुत्^० - नात्ः पा
 ४, ४.
 सौमा (म आ) श्रुत्^० - वीन् वज २,
 ३६
 सौमा (म आ) श्रुत्^० - तम् वीश्री
 २९, ११ : ११, -ने वैश्री २०,
 ४. ४.
 सौमा (म श) श्रुत्^० - ने आथ्री ६,
 ८, १६.
 सौमा (म-अ) श्रुत्^० - नात् काथ्री
 २७, ४, ३९
 सौमा (म-अ) श्रुत्^० - ने मीम् ११,
 ३९
 सौमा (म-अ) श्रुत्^० - न्नाम् निम्

a) व्यय । b) वस । c) पानि पृ २६५० e d । d) उप < स/सु(अनिषेवे) । e) पाने
 पृ २७०९ e d । f) वैप १ द । g) = योग-वाग- । h) = साम-विशेष- । i) उप = २श्रुत्- । j) "श्रु"
 इति धरत्वे टि , "सुधम- इति म (मा २, १८), "वमद्- इति PW. प्रम्. । k) उप. वतीरि मण् प्र. । l) श्रु
 इति या. (श्रु न् लौ ५, २१) ।

१०, ११ २२, -न्तानि वीथी
 २१, ६ २३
 सोमा(म-अ)वचार-कालातिक्रमा-
 (म अ)निरित विपर्यास व्यववा-
 समासा(म-आ)दि- -रिपु
 वीथी २२ १३ १५
 सोमा(म-अ)पवर्षा- -री काथी
 १५ ९, २१
 सोमा(म अ)पदरण- -ये काथी २५,
 १२, १८
 सोमा-पृष- -पाम ५, २, ६१,
 -प-पण्य काथी ३, ८, १, आथी,
 वीथी १३, १८ २०, शथ २,
 २, ४०
 सोमापौष्ण- -पा ५, २, ६१,
 -प्य काथी २४, २, ९, -प्यम्
 माथी ५, १, ५, ७४, २, १०, ६,
 २६, हिथी १८, १, २५,
 -प्यस्य माथी ५ १, ९, २४,
 -प्ये काथी ५ १, ९, -प्येन
 माथी ५ १, ६, ११
 सोमापौष्णी- -पथी
 साथ १, १५४
 सोमापौष्ण दर्शन-
 -नात् काथी ५, १, ७
 सोमापौष्ण- -प्य माथी ८,
 ६, ५ आथी २३, १, ५, -प्यम्
 वीथी १२, ४ २८, १३, १८
 १×४, हिथी १३, ३, ४४, २२,
 ३, ८, शथ २, २ ४०, -प्यस्य
 काथी ६, ११ २, हिथी २२, ५
 २४, -प्या वीथी १५, २३
 १६, -प्ये ३६ ४ ११
 सोमा(म-आ)प्यापना(न-आ)दि-
 -दि काथी ८, २, ३१
 सोमा(म-अ)व-वृषत- -नानि

शथ १, ४
 सोमा(म-अ)भाव- -वे थापथी १४,
 २४, १२, हिथी ५, ६, ७
 सोमाभिव्यजन- -नस्य वाथी ३,
 २, ७, १
 सोमा रुद्र- -पुं०द्रा वीथी १३,
 १० ८, ९, १८ ४^३, माथी,
 -द्रौ शथ ५ ६
 सोमासौद्र- -द्र काथी १५,
 ३, २२, चाथ ४१ १०^१, -द्रम्
 माथी ५, १, ६, १, १२, १५, १, ४,
 शथ २, ६, ७४
 सोमारौद्री- -द्रीम्
 माथी ५ १, ६, १८
 सोमारुद्रीय- -यम् शथ ५ ६
 सोमा रौद्र- -द्र हिथी २२, ३ ७,
 -द्रम् वीथी १३, १० १ ३,
 १८: ३×४, हिथी २२, ३, ९,
 -द्रे हिथी २२ ३, १
 सोमारौद्रीय- -यम् हिथी २२,
 ३, ७
 सोमा(मा-अ)क- -कथो थप ५२,
 ८, २, -कै शथ २, १०, ८५,
 शथ १४ १, वेज्यो ६
 सोमाकं ग्रहण- -ये कप्र १, १०,
 १४
 सोमा(म अ)र्ध- -र्ध वीथी १७
 ४५ १, -र्धस्य काथी ९ १, ७
 सोमार्ध-व्य- -व्यात् काथी ६,
 १०, १५
 सोमा(म >)मा र(व >)थी- -पा
 ६, ३, १३१, -तीम् शथ ९
 २३, गुथा ३, ११७
 सोमा(म अ)पराप- -पथानि
 थापथ २, २१, ७, हिथ २, ५,
 १३७

सोमा(म-अ)विरोध- -धेन काथी
 १६, ६, ७
 सोमा(म-आ)सन्दी-प्रका(र >)
 रा- -रा वीथी १३, ७ ८
 सोमा(म आ)सन्दी-वद् काथी
 १३, ३, ५, १२ ४, ७
 सोमा(म आ)हरण-उ- -जम् तु
 ५ २
 सोमा(म-आ)द्वनीय- -यथो
 काथी ८, ८, ५,
 सोमा(म-आ)द्वम्- -राय काथी
 १३ ६, २, आथी १४, २४,
 ११, हिथी १५ ६, १४, -रे
 हिथी १७, १, २६^१
 सोमा(म आ)द्विति- -तिमि आथ
 ३, ३, २, -तिपु हिथी ८, ६, ६,
 -ती थापथी १२, ३, १२, २०,
 २१ माथी २, ३, ७, १४, वीथी
 १५ २६ ३
 सोमा(म आ)द्विति- -ति शथ
 २, २, ४, गुथा २, ७१, १०३,
 साथ १, १४
 सोमिर्- -मिन थापथी ६, २४,
 ८, वीथी १७, ४६ २, माथी
 सोमे(म-अ)प्या- -प्या काथी १, १,
 १, ६४, हिथी ३, १, १३, वैए
 १, १९ १२, -प्याया थापथी
 १, १४, १०, -प्यायाम् काथी
 १८, ६, ३२, -प्यायै वीथी
 २१, १ ८, ९
 सोमेज्यो (प्या-उ)प्यात- -ये
 काथी २५, ६, ४
 सोमे(मा र)म्- -न्त्री रुदे ३,
 ६७
 सोमन्- -न्द्रम् माथी ५,
 १, ५, ७७, हिथी २२, ४, ५

a) वस । b) वैप १३ । c) अन्तं इति पाठ १ मनि शोष (दृ ऋ २, ४०, १) । d) अप्य-
 इति पाठम् । मत्वर्थे प्र । e) व्राप छ. प्र । f) व्यप ।

रसोमेन्द्र^३ -न्द्रम् आपथी १४,
 ३०, ७, वीथी १३, २५, १, ४
 सोमे(म ड)दि -दि. काथी १४,
 ५, २
 सोमो(म-उ)त्तर- रम् अथ ५३,
 ४, १
 सोमो(म-उ)द्रक- दम् वाप ६,
 ११
 सोमो(म-उ)पदेश- शात् काथी
 १०, ७, १४
 सोमो(म उ)पवहन- रम् काथी
 ७, ७, ११, ३, ५ ९, आपथी,
 -नेव काथी ७, १५, २, काथी
 २२ ६, १३, काथी ८, ८, १४.
 सोमो(म-उ)पावहरण- णम् काथी
 ९, १४, १६
 सोमो(म उ)प्योप- यम् आपथी
 १३, १, ५ २२ ३, वीथी १६,
 १ ८, २४ ३, हिथी
 सोम्य- वा ४, ४, १३७, १३८,
 -ण्यम् आथी ४ ७, ४^०, ५ ५
 १८^०, १०, १०४, काथी,
 -ण्यम् आपथी १ ७ १३, ९,
 ११, १४, ३२, ४, वीथी भाए
 २, ११ ४^०, १४ १३^०, हिथ
 २, १० ५^०, १३ २^०, -ण्यम्
 आपथी १, १०, ७, वीथी ५
 १५ १७ भाथी, -म्याव उद्
 ४, १७^० -ण्यम् आपथी
 ४ ११, १, भाथी ४, १६ ०
 हिथी, आमिष्ट ३ ५ ७ ६^०
 -म्याव या २, २५^०, -ण्यम्
 आथी २ १९, २३ आपथी ८

१५, १७, १२, ८, १५, वीथी,
 हिथ २, १२, २^०, गोथ ४
 ३, ४^०, या ४^० ११, १८, १९,
 -ण्यम् आपथी २, ७,
 १६, आपथी, भाथी १, १, २,
 ३७^०, ७, ९, ५२^०, -ण्यम्
 काथी १०, १, १३, आपथी
 १४, ३२, २, २३, ५, १६, ९,
 १, काथी ८, ३, १३
 रसोम्य, म्या^० - ००म्य वापथी ४,
 ३७ १०, काय ४१, १८^०, वैप
 ४ ८, ७, -म्या वीथि २, ९, १२^०
 रसोम्य^० - ००म्य वापथी ४,
 ८९ ३३, १०८ १७, आपथ
 २, ४, १४^०, वीथि २, ९, १३,
 सु २८, ५, अथ ७१, ४, ५, वैप
 २, १०, ८^०, -म्य वीथि २, ९,
 १२^०, -म्यम् वैप ४, ११
 ४, -म्या अथ ४१, ३, १२,
 ४४ २, ९, ५२, १३, ३, ५, -००मे
 वीथि २ ९, १३^०, सु ३०, ३^०
 सौम्य दर्शन^३ - ना अथ ३,
 ८, १३, अथ ५२, ४, ५
 सौम्य-रूप^३ - यम् विप ९७,
 १०
 सौम्य-वाच् - वाक् अथ २३,
 ४, २
 सौम्य वृक्षा (क्ष-आ)अथ्य-
 -वा अथ ७०, ४ ६
 सोमन् - √हु (अभिषे) द
 सोम नियपन- मन् सोम- द
 सोमापन्ति निम् ६ १० २२
 सोमा रुद्र- मन् सोम- द

सो(स-उ)प्य - म् अथ २३, १३, २
 सो(स-उ)प्योप- य वीथी ६, १७
 २२, अथ ४, १, २ विप ६४, १४
 सो(स-उ)प्यो(प्य-उ)द्रक^३ - णम्
 वीथ ५५, ७
 रसो(स-उ)प्यन्^३ - म् अथ
 ६, ३७, अथ ४, ४, १, -म्यम्
 अथ १२, ९, -म्यम् अथ
 १३, १६, -म्यम् वीथि १, १४,
 -म्यम् अथ २३, १९ -म्या
 अथ ६ २, १०, ११, १४, ५७,
 -म्यम् अथ २, २, ६, अथ १,
 ५४, वीथि १, १०, -म्या
 अथ १, १३
 सोम-ना- तम् अथ १३ १६
 सोम यमो(म-उ)दय- य अथ
 १४, ५४
 सोम-वत् - वात् अथ ११ २५
 सोमिन् - म् अथ ५, ३, ४,
 -म्यम् अथ ५४, १०
 सोमो(म-उ)प्यन् - म् अथ
 अथ १३ ६, १४, १९
 रसो(स १)मन्^३ - > म्
 (अ)अ- यम् अथ २१८
 रसोप्यत् - √हु (अभिषे) द
 रसोप्य(र>)न्ती- मन् √हु(वया)
 द
 सौम्यरसप्र- १त् अथ- द
 सौम्यरायण^३ - म् अथ ४, १०८
 रसौम्यरीय- २त् अथ- द
 रसौम्यरीय- २त् अथ- द
 सौम्यर्य- १त् अथ- द
 सौकुमारक- सुकुमार- द

०) इति कर्तव्यं इति इति (पा ७ ३, २१) । ०) याम वैप १ २६७३ ० ६ । ८) सौ इति पाठ १ इति शोध (तु आत्र, अ ८ ६५, ८ व) । ०) याम वैप १ सोम्यात् सौ १८ ४, ६२ टि द । ८) सौ इति पाठ १ इति शोध (तु अ १०, १६ ८) । १) यामे प्र २००४ ४ । २) सपा वै ३, ८, ५ २ सोम्या इति यामे । ३) शीतल स्वभाव- इत्यर्थे यद् प्र उक्त (पा ५, ३, १०३) । ४) सपा सो<>सौ इति यामे । ५) स्वार्थे ण्यम् । ६) वस । ७) यत् । ८) यत् > वस । ९) व्यप ।

सौकृति^{११०} - नयः बौधाय ३ : ८.
 सौकृत्यायन- सुकृत्य- द.
 सौकृिक- सुक- द.
 सौकृत्य- सुकृत्य- द.
 सौख- सुख- द.
 सौखतपसिक- प्रम. सुख- द.
 सौखीय- सुख- द.
 सौख्य- सुख- द.
 सौगन्ति^{१११} - न्तयः बौधाय ३१ : ४.
 सौगन्धि^{११२} - न्तयः बौधाय ९ : १.
 सौगन्धिक- सुगन्धि- द.
 सौगन्तुन्तिगलुन्तेकटमसि ७५
 ३६, १, ३.

सौचक्य- सुच- द.
 सौचिक्य- सुचिक- द.
 सौचीक^{११३} - नः कथ २, १०, १०;
 ७१; श्वे ७, ६२.
 सौजामि- सुजामि- द.
 सौडामिनि- सुद- द.
 सौत- सुत- द.
 सौतङ्गमि- सुतङ्ग- द.
 सौति^{११४} - नयः बौधाय ४४ : ३.
 सौत्य- सुत (समिपरे) द.
 सौज- सुज- द.
 १. २. सौप्रामण- प्रम. सुप्रामण- द.
 सौप्री- सुप- द.
 सौदक्ष- सुदक्ष- द.
 सौदत्तोप- सुदत्त- द.
 सौदनेयक- सुदने- द.
 सौदन्तेय- सुदन्त- द.
 सौदामघ^{११५} - नः बौधाय ४३ : २.
 सौदामेय- सुदाम- द.
 सौदास- सुदास- द.
 सौध- सुध- द.
 सौधयन- सुध- सुधयन- द.

सौधर्म^{११६} - (> धर्म- पा.) षण ४, १,
 ४१.
 सौधवि^{११७} - नयः बौधाय ४१ : ४
 सौधातकि- सुधाय- सुधात- द.
 सौधामनि- सुधामन- द.
 सौधामित्रिक- सुधामित्र- द.
 सौधावतान^{११८} -
 सौधावति- सुधाय- सुधाव- द.
 सौधघ^{११९} - नयः बौधाय ४१ : ६.
 सौधव्य- सुधव्यावनी- सुध- द.
 सौधामि- सुध- सुधाम- द.
 सौधिक- सुध- द.
 सौधेय- सुधेय- द.
 सौधतिथि^{१२०} - धिः बौधाय ४६ : ४.
 सौधय- सुधय- द.
 सौधय्य- सुधय्य- द.
 सौधर्ष- सुधर्ष- द.
 सौधर्य- सुधर- द.
 सौधर्व- सुधर्व- द.
 सौधामायनि- सुधाम- द.
 सौधिङ्गल- सुधिङ्गल- द.
 सौधिष्ट- सुधिष्ट- द.
 सौधूत- सुधूत- द.
 सौध्रव्य- सुध्रव्य- द.
 सौध्रजस्त्य- सुध्रज- द.
 सौध्रवि^{१२१} - नयः बौधाय ३१ : ६.
 सौध्रव^{१२२} - नयः बौधाय ३१ : ९.
 सौधग- सुधग- द.
 सौधर- सुधर- द.
 सौधरि^{१२३} - रिः सुध २, २१७; षण
 २०, १४, ११४.
 सौधरी- सुधरि- द.
 सौधगितेय- सुधग- सुधग- द.
 सौधूत- सुधूत- द.
 सौधर^{१२४} - नयः बौधाय ३१, ४१^१.

सौध्राव- सुध्राव- द.
 सौध्रव^{१२५} - नयः बौधाय ४, ४७; २१४.
 सौध- सुध- द.
 सौधङ्गल- सुधङ्गल- द.
 सौधतायन- सुधत- द.
 सौधतायन (> नक- पा.) षण
 ४, २, ८०.
 सौधत्य^{१२६} - नयः बौधाय ३१ : ७.
 सौधनस- सुधनस- द.
 सौधनसायन- सुधनस- द.
 सौधनस्य- सुधनस- द.
 सौधनि^{१२७} - षण २, ४, ११.
 सौधमित्रिका- सुधमि- सौधम-
 सुध- द.
 सौधमथो- सुधमि- सौध ४, १, ९.
 सौधमोष्ण- सुधम- द.
 सौधयन (> नक- पा.) षण
 ४, २, ८०.
 सौधरौद्र- सुधमि- प्रम. सुध- द.
 सौधमि- सुध- प्रम. सुधमि- द.
 सौधमी- सुध- द.
 सौधमुचि^{१२८} - नयः बौधाय ३१ : १.
 सौधय- सुधेय- द.
 सौधेन्द्र- सुधेन्द्र- सुधेन्द्र- सुध- द.
 सौधयक- सुधय- द.
 सौधयन^{१२९} - नयः बौधाय ३१ : २.
 सौधयसायन- सुधयस- परि. द.
 सौधयसि- सुधयस- द.
 सौधामायनि- सुधाम- द.
 सौधामि- सुधामि- द.
 सौधामुनि^{१३०} - निः बौधाय ३१ : २.
 सौधर- सुध- द.
 सौधर- सुध- द.
 सौधरि^{१३१} - रिः बौधाय २७ : १.
 सौधेय- सुधमि- द.

a) षण. 1 b) <सु-कृ- इति षण. 1 c) < सुधर्म- इति षण., < सुधर्म-
 इति षण. 1 d) इ २४११ ङ. 1 e) = सुधमि- 1 f) परस्परं षण. 1 g) सौधुः
 इति षण. 1

सौरमस- सुरमस- द.
 १सौरसेय- सुरस- द.
 २सौरसेय^०- -वायु सु ९, २.
 सौरसेन्य- सुरसेन- द.
 सौरासक- सौरास- सुरास- द.
 सौराम- सूर्य- द.
 सौराष्ट्र- 'ष्ट्र'क- सुराष्ट्र- द.
 सौरिक- सुरा- द.
 सौरोग्रह^०- द्वा बौधाय १७ : ७.
 सौरोहिक- सुरोहिनी- द.
 सौरोहितिक- सुरोहितिका- द.
 सौर्य- सूर- द.
 सौर्य- प्रष्ट, १-२सौर्यचान्द्रमसी-
 प्रष्ट २सूर्य- द.
 सौलक्षिक- सुलक्ष- द.
 सौलाम- 'भ्य- सुलाभिन्- द.
 सौलेखन- सुलेखन- द.
 सौलोभ- 'भ्य- सुलोभिन्- द.
 सौलोह्य- सुलोहित- द.
 सौव- स्व- द.
 सौव- स्व- द.
 सौवत्सेय- सुवत्स- द.
 सौवर- ✓स्व- द.
 सौवर्गमनिक- स्वर्- द.
 सौवर्चल- सुवर्चल- द.
 सौवर्चलीय- सुवर्चल- द.
 सौवर्चस- सुवर्चस- द.
 सौवर्ण- प्रष्ट सुवर्ण- द.
 सौवर्णकामन- सुवर्णक- द.
 सौवर्णानिक- प्रष्ट, सौवर्ण-
 सुवर्ण- द.
 सौवस्ताय- सुवस्तु- द.
 सौवस्तिक- स्वस्ति- द.
 सौवाहुमुद- 'दय- ✓स्व- द.

सौवाभ्यायिक- शाभ्याय- द.
 सौवासिनी^०- नीम् वीष्ट ३, १०,
 २४, शीष्ट २, १४, २१.
 सौवास्त्र- सुवास्तु- द.
 सौवि- (> 'वीय- वा) पाग ४,
 २, १३८.
 सौविदत्त- पाठभो २, ३, १२.
 सौविश्रयत्^०- म बौधाय ४१ १३
 सौविष्टृत- 'नी- शिरष्ट- द.
 सौविष्टि- शिरष्ट- द.
 सौधीर- सुधीर- द.
 सौधीर^०- ता नाशि १, २, १२.
 सौधीरायण- (> 'ण मक्त- वा)
 पाग ४, २, ५४
 सौवेरणि^०- (> 'णीय-)
 सौवर्मरु- 'शर्मि- सुवर्मरु- द.
 १-२सौधरल- सुधरल- द.
 सौधुत- प्रष्ट सुधुत- द.
 सौदलोभ्य- सुदलोभ- द.
 सौ(र्ष-ओ)पच- 'भ्य काय २४, ४,
 २८, ३, माष्ट १, १४, ६, वाष्ट
 १५, १७.
 सौ(र्ष-ओ)पधिक- काय अम ३,
 २६
 सौ(र्ष-ओ)पधियनस्पतिक- 'करय
 काय ४१, २३
 सौ(र्ष-ओ)पधी- 'भ्य बौधो १९,
 १० ९
 सौरायण- सुपामन्- द.
 सौष्टय- सुष्ट- द.
 सौसायन- (> 'नक- पा) पाग
 ४, २, ८०
 सौसुक- > 'कीय- पामा ४, २,
 १४१

सौसुकि^०- वि बौधाय ४४ : ४.
 सौस्र- सुस्री- द.
 सौरवाली- सुस्थाल- द.
 सौस्नातिक- सुस्थाल- द.
 सौहविय- सुहविय- द.
 सौहार्द- सुहृद्- द.
 सौहित्य- सुहित- द.
 सौहृदय- सुहृदय- द.
 सौहृद्य- सुहृद- द.
 सौहोष- सुहोष- द.
 ✓स्कन्द^० पाषा म्वा पर गतिशो-
 पण्यो, स्कन्दे बौधो २८,
 १२ ३१, वाप ३०, ७, स्कन्दति
 शाधो ८, १५, ७१, वीधो,
 स्कन्दति बौधो १४, ६ : ५;
 स्कन्दामि आमिष्ट १, ५, ५.
 १४, ६, ३, ६७, स्कन्दत् बौधो
 ३, १६ : २८, भाधो ४, ३, २,
 ऋमस्कन्द कौ ६, १, अवाय
 १, ३, स्कन्देत् नाधो ३ ३१ ७,
 स्कन्देत् नाधो २५, २, २४;
 आपधो, स्कन्देयुः आपधो ९,
 १२, २, भाधो ९, १५, १७,
 भाधो ३, ६, १७, वैधो.
 ऋचस्कन्द नाधो ३, १३, १५,
 ५ २, ६, शाधो, ऋचस्कन् नाधो
 २५, १२, ८^३, वैताधो १६,
 १५^१, ऋचस्कन् नाधो ३, २०,
 ४, आपधो ९, ६, ७^३, १४,
 २^३, १४, २८, ६^१, १५, १७, १^३,
 बौधो, वैधो २१, १५ ४^१,
 हिधो १५, ७, १३^१, स्कन्दा^१
 आपधो २, १, ८^१, २, ३४, ४,
 वीधो १, ११ २१x, भाधो.

a) = जनपद- वा तद्वसिन्- वा । b) 'वप । c) = सुवासिनी- (दु गोष ५, २६) ।
 d) = मूर्धन्या विक्रो । e) पृ २१०२ १ द । f) = षष्ठ- । g) शौच २, १०४ वा ३, ४, ५६, ७, ४, ८४
 पराश्रा द । h) पामि वैप २, ३४ अस्कात् तैरा ३, ७, १०, ३^१ टि द । i) परस्पर पामे । j) पामि वैप १
 स्कन् मा १, २६ टि द ।

स्कन्धपात आधौ १५, ११,
३; वीथौ २, ११:२; भाथौ;
स्कन्धमेव आधौ ३, ११, ७, वीथ
४, १, २२.
स्कन्धा पा ६, ४, ३१.
स्कन्धन- ने आधौ ३, ११, २३;
वैथौ २०, १०: ८.
स्कन्ध, छा- -पञ्च: आपधौ २, ६, ७,
वीथौ २, १६: १०; द्विथौ १५,
२, १४; अत्राय ४, ३^६; -अम्
आधौ ३, १३, १५; काधौ:
-अस्य आपधौ १०, १७, ७,
माधौ २, १, ३, १; वाधूथौ २,
१३: १; वैधौ; -पञ्चा आपधौ
२, ६, ७^६; १७, १^६; वीथौ २, १६:
१०^६, द्विथौ १५, २, १४^६; ७,
२३^६; अत्राय ५, ५; -जा: वाधौ
२५, ५, २८; काधौ ३ ३: ६;
-पञ्चा^७ काधौ २५, १२, ८;
आपधौ २, ६, ७^६; १७, १;
वीथौ २, १६: ११; १२;
द्विथौ १५, २, १४^६; ७, २३;
अत्राय ५, ५, -आम् आपधौ १,
१८, ४; वैथौ ३, ७: ११; ४,
६: २; द्विथौ १, ५, ३३;
-पञ्चानाम् आपधौ १४, २७, ५,
द्विथौ १५, ७, ४, -वे वाधौ ३,
२०, ४; आपधौ २, १७, २; ३;
१४, २८, ३, वीथौ.
स्कन्ध विरल-मिह-भद्र-नष्ट-दुष्ट-
विपरीत-होम- -नेपु वीथौ २८,
१०: २.
स्कन्ध-प्रागक्षिप्त- -सम् वाधौ

१, २, २, २९; ४, ३३; -त्तन
काधौ २५, २, २५^०.
स्कन्ध-विच्छिन्न(ञ>)वा- -०छे
कौथ २, ८, ४^१.
पञ्चिस्कन्धादौ^{१४} आपधौ २, १७,
१; द्विथौ १५, ७, २३; अत्राय
५, ५.
स्कन्धा(ञ-ञ)सुमान्त्रण- -गम्
वीथौ २, १७: २८; २४, ३१: ९.
स्कन्धा(ञ-ञ)भिमर्शन- -गम्
आधौ ३, ११, ११.
स्कन्धा(ञ-ञ)सृष्टि-होम- -भौ
कौथ ६, २.
स्कन्धाहुत- -गम् अत्राय ४,
३^६.
स्कन्ध(यथा.)^{१६}- पाग ३, १, १२^४;
४, १, १८^६; ३, १०६; ५, १, २;
३, १०३; वा, पाग ५, ३, १००^६;
-न्द: वाग २०, २; अत्र २०, ६,
३; चण्डू ४: ११; -न्दम् आग्निष्ट
२, ६, ३: २६; काग १२, ७;
वीथौ अत्र २०, ६, २; वै २, ३, ५;
शंथ ११६: २५; वीथ २, ५,
२२^६; -पञ्चाय आग्निष्ट १, २, २:
२३; भाग ३, ९: ९; द्विष्ट २,
१९, ६; अत्र २०, ४, २^६.
स्कन्धापन- वा ४, १, १८.
स्कन्धावन्य- वा ५, ३,
११३.
स्कन्धिदन्- वा ४, ३, १०९.
स्कन्ध-दैवत्य- -त्यम् वैष्ट ६, ५: १.
स्कन्ध-पार्यद- -दाम् आग्निष्ट २, ६,
३: २७^६; शंथ ११६: २६;

वीथ २, ५, २२^६.
स्कन्धपार्यदी- -दी: आग्निष्ट
२, ६, ३: २७; वीथ २, ५, २२.
स्कन्ध-वह- -हाम् शंथ ११६: २५.
स्कन्ध-विशाल- पाग २, ४, १४;
-अयो: अत्र ४०^६, १०, ४; ४१,
१७, २.
स्कन्ध- पा ५, १, ३; ३, १०३.
स्कन्धदक्षिणान्तान् आग्निष्ट ३, ६, २:
१४.
स्कन्ध(यथा.)^{१७}- पाठभौ २, २,
१७३^६; पाग २, ४, ३१; ४, १, १८^६;
३, १०६; ५, ३, १०३; -न्य: वा
६, १७; -न्यम् आग्निष्ट २, ६,
८: ४०; -न्ययो: शंथ ४५७:
१४; -न्यस्य कौथ १, १२, ८;
शीष्ट १, २०, ३; -न्याय् अत्र
२२, २, ३; -न्ये पाग १, ८, ३;
-न्येन वीथ २, १, ५, १६.
स्कन्धावन्य- वा ४, १, १८.
स्कन्धावन्य- वा ५, ३,
११३.
स्कन्धिदन्- वा ४, ३, १०९.
स्कन्ध-व- -जा: आपग ११, १५;
आपग १, २, ३८; द्विष्ट १, १,
६९; -जम् वीथ २, ५, १७.
स्कन्ध-द्वय- -गम् शंथ ४५७: ४;
४५८.
स्कन्ध-प्रमा(थ>)ग^{१८}- -गाम् अत्र
३०^६, २, २.
स्कन्ध-मात्र- -त्रम् अत्र २२, २, ३.
स्कन्धमात्री- -त्या: वाधौ
२६, २, ८.

d) पागे. वै २, २४. स्कन्धा तत्रा ७, १०, ३ द्वि. द. । b) पागे. वै १ स्कन्धम् काठ २५, ४^३ द्वि. द. । c) [उपचारात्] मन्त्र- । d) पागे. वृ ६७ p द्व. । e) वेप १ द्व. । f) स्या. भाथौ ३, २, ५ द्विथौ १५, २, ११ तन्वां हुतम् दत्ति, भाथौ ३, ११, ११ आपधौ २, ६, ३ भाथौ २, ८, ६ तन्वां हुतम् (वृ ११५६ ० द.) इति च पागे. । g) नाप., अत्र. । h) द्व. पागम्. । i) स्कन्ध- इत्यन्ते (ह. पागम्.) । j) <✓स्कन्ध । k) वस. ।

स्कन्ध-वाह- हेतु अथ २५५
 स्कन्ध शाखा(वा-अ)हृकुरो (१-
 उ)अथ- अ अथ ६४,४,१
 स्वन्ध,७७वा- पा ५, ३, १०३,
 -न्या आधो १२, ९, ११,
 धी १०,२०.६,३२ १x४
 स्कन्धस्- पाठ ४,२००, -न्यासि
 वाधुधौ ४,६४ ६, या ६ १०१
 स्कन्धो धी(व>)धि- धी निम्
 १,३ १८, अथ १,७,३,२,१,
 १०५, मुष पि ३,२९, -धी ?
 अथ १२, ५(६)
 √स्कम् इम् पाधा भ्वा आत्म
 प्रतिपद्ये, √स्त्रञीत् वीधौ ११,
 ७ ३६
 अस्त्रभापत् तेषा ११,१०१
 चास्त्रम् प्राप्ता ११, १०१
 स्त्रु- > √स्क्रमीयस्- -यान्
 सत् २,२८
 स्क्रमित- पा ७, २, ३४, -पात्
 आधौ ५ २०, ६, धीधौ ३,
 २०,४, माधौ २,५, २,२५
 स्क्रम्- पाठ १, १८६, ३,
 १०६४, -पुम्मा माधौ १,२,
 २,२०१, २ १,४, २८ वाधौ १,२,
 ४ ६३, अथ १०,१०, -पुम्मा
 धन १ १६, -मे अथ ७२,
 १ ३ -मेन अथ १०, १११
 स्कन्धापन- पा ४,१,९८
 स्कन्धापन्य- पा ५, ३,
 ११३
 स्कन्धित्- पा ४,३,१०६

√स्कम्भ-सर्जन्- -न्म् वीधौ
 ६,१५२ २९, १६ १९६, माधौ
 २,१,४, ३८, वैधौ १२, २०
 २, २१ ६
 स्कम्भसर्जनी- -नी पाधौ
 ७,९,२३, वाठधौ ८८
 स्कम्भ-सर्जनि- -नि द्विधौ
 ३,२०१
 √स्वम्भन्- -न्म् आपधौ १०,
 २८, १, २९, ९, वीधौ, -नेन
 प्राप्ता ४, २१, १०, ३, उम् २,
 २८, ६, ६
 √स्वम्भनि- -नि आपधौ १,
 २१, ३, वीधौ १, ७ ५, ६,
 माधौ १, २३, २, वैधौ ४, ८
 ३, द्विधौ १, ५, ७८, ७, ३,
 १२९
 √स्कु- पाधा भ्वा उभ आप्रयो,
 √चोन्धुषते निष ४, ३, या ६,
 २२,
 चोन्धुषमाण- -ण या ६, २३१, ६,
 स्कुण्ड पाधा भ्वा आत्म आप्रयो,
 स्कुण्ड्या आप्र १, ३१, २२, द्विप
 १,८, ४१
 √स्कुम्-
 √स्त्रद् पाधा भ्वा आत्म स्त्रदने
 स्त्रद- दा- (> स्त्रय- पा) पाप
 ५,१,२
 √स्त्रल- पाधा भ्वा पर सकले,
 अन्धे, स्त्रलेत वाधुधौ ४ ३७
 २०
 √स्त्रु- पाधा हुदा पर सवरयो

√स्तन् पाधा, भ्वा पर प्रतीपाते
 √स्तम् पाधा भ्वा पर संवरयो
 √स्तन् पाधा, भ्वा पर अन्धे, हुदा
 उभ देवतन्धे, स्तन्धे अथ ७०,
 ११,९, स्तोयु या ७१, १३,
 १,
 स्तन्धति वाधुधौ ३, २८ ४, ४,
 २७ ९, १३, १६, १७, आप्र,
 स्तन्ध यीधौ १३, २८ ४, ४,
 पैताधौ ८, ११, गु ९, ३,
 स्तन्धेत् आप्र १, १२, ५,
 द्विध १, ४, ५,
 स्तन्धत्- -यति वाधु ९, ६, माय,
 आप्र १, १२, ३१, द्विध १,
 ४, ३१, -यत् लाधौ ३, १३,
 १२, आप्र २, ११, २०१, वीधु
 ९८, २१, अथ २, १, या १०,
 १११, -यन्तम् गीधु ३, २, १८
 स्तन्धित्- पाठ ३, २६, -स्तु
 आप्रधौ १६, १२, ४१, २१,
 ६, १५, वाधुधौ, -स्तुना आप्र
 १, ९, २३, द्विध १, ३, २४, अथ
 ४, १५, -स्तुम् पाठ ३ १५,
 १७, -स्तौ आधौ २, १८, ११,
 वाधौ १, ४, ४, ३१, द्विधौ
 स्तन्धित्तु-वर्ष विधुद्- सुध
 गीधु १६, २३
 स्तन्धित्- -उम् अथ ६१, १, २६,
 ६२, ४, ३, -ते वीधु ३, १,
 १६, वीधु १४१, १७
 स्तन्धित् महाभ विधुद् वर्ष-
 न् अथ ५१, ५२

- a) उभवापार्थे वत् प्र । b) वै १ ६ । c) <√स्कम् । d) = छन्दो विरोध- ।
 e) पा ३ ९ ८२ पराम्ठ द्र । f) पामे वैप १ स्क्रमिता टि द्र । g) व्यप । h) हु पाका । स्त्रम्-
 इति माध्वा प्रवृ । i) पामे वैप १ स्क्रम् मे १,१,७ टि द्र । j) पामे वैप १ स्क्रम्भसुर्जनम् टि द्र ।
 k) अत्-सर्जनि- हयनेन स न्यायता द्र । l) या ६, २२ या ३ १, ८२ पराम्ठ द्र । m) <√स्कुम् वा
 √स्कु भेति हरदत्त, स्कुव्या इति शिव । n) वा रोपने ष्ठी इत्येके, धारणे इति माध्व (हु पासि) पा
 ३ १, ८२ पराम्ठ द्र । o) पाका पाठ । p) या ३, १० पराम्ठ द्र । q) हु अथ १ ।

इस्तम्ब(वक्रा)^{१०७}- पाठ ४,१६, पाग
५, ४, २९, -म्यम् आपथी
१, ३, ७, ८, वीथी १, २: १३,
भाथी, -म्या जाथी ८, ५, ४,
-म्यान् क्राथिष्ठ ३, ८, १: ९,
२ ६८, वीथि, कौत् २९, ४,
-म्यानाम् क्राथिष्ठ ३, ८, ३: ८,
वीथि १, १५ ७९; -म्ये आथी
३, १४, २०, काथी १७, ४, १,
माथ २, १९: ११^७, शोध २, ९,
२५, द्राथ २, ३, ३२, वथ २,
१, २५

स्तम्ब-क- पा ५, ४, २९.

स्तम्ब करि- पा, पाया ३, २, २४.

स्तम्ब-व-क, -क- पा ३, २, ८३.

स्तम्ब-ज^{१०}- -जम् दधि २, ४१.

स्तम्ब पर्वन्त- -तम् अप ७०, १२,

६, ६५ १२२

स्तम्ब-गजुष^{१०}- -जु. वाथी २, ६, ७,

८, ३, १३, ११, १, ६, भापथी,

-हुष आथी २, १, ३, वीथी

२१, १४: ११, २२, ५: १४४,

भाथी, -हुषि वीथी ३, २४ ७,

-हुषी वीथी ५, ५: २०, २१,

२: १५, २५, १ २२, -हुषो

वीथी २१, २ १५

स्तम्ब-नजुष^{१०}- -जसा कौत् ३१, १५

स्तम्बे-र-म- पा, पाया ३, २, १३

इस्तम्ब^{१०८} (> स्ताम्बायन- पा)

पाग ४, १, १९

स्तम्बमिज^{१०}- -ज शब्द २, १०, १४२

इस्तम्ब- प्रथु ✓स्तम् द

इस्तम्ब^{१०} (> स्ताम्बायन- ०म्बन्-
पा.) पाग ४, १, १९; ३, १०९^०.

स्तम्भन- ✓स्तम् द.

स्तम्भशब्द^{१०}- -ग्दा वीथीप्र १७:

१४.

स्तम्भस्तरशब्द^{१०}- -दानाम्

आपथी २४, ७, १^१; द्विथी २१,

३, १०.

इस्ताम्बानोपमानौ क्राय ६, १.

स्तरण- प्रथु. ✓स्तु (आच्छादने) द.

स्तरी^{१०}- पाठ ३, १५८; -पंथि. आथी

७, ४, ४, शाथी २, १२, ७, आपथी.

स्तरितवे ✓स्तु (द्विषामाम्) द.

स्तरिमान- ✓स्तु (आच्छादने) द

इस्तरो^{१०} पाठ ३, १४, १२, १३^६.

स्तरी^{१०}- ✓स्तु (आच्छादने) द.

स्तरपति अप ४८, ६१.

इ-स्तय- ✓स्तु द.

स्तयक- , स्तयकित- स्तयक- द

स्तयन- , च्यन्- ✓स्तु द.

इतिवादेजसघरनमद्रि- अथाय ६, २

स्तवा- , स्तवान- ✓स्तु द.

स्तानिकथ- सनिक- द.

इस्तासु^{१०}- सु अप ४८, १७, निष

३, १६

इस्तायत्^{१०}- यत् कौत् ४८, ३७,

अप ३२, १, ८, अथ ७, १०८,

अं २. ७१.

स्ताव- , स्ताव्य- ✓स्तु द

इस्तिष् पाया. स्वा आत्म

आसकन्दने

इस्तिष् पाया भ्या आत्म कुरणे

इस्तिपा^{१०}- -या निष ४, ३, वा ६,
१७४.

इस्तिथिग^{१०}- > इति-य (ह >) वी-

-ती वाथी १, ४, १, १०^१.

इस्तिभि- पाठ ४, १२२.

इस्तिभिक^{१०}- > इ-य (ह >) वी-

-ती^१ माथी ५, ३, १२; द्विथी

३, ३, ५०.

इस्तिभिग^{१०}- > इ-य (ह >) वी-

-वी माथी १, ५, १, २४, ४, ७,

१^१, -त्य- आपथी ५, ५, १०^१.

इस्ति, स्तीम् पाया. दिवा. पर

आर्दीभावे.

इस्तिपा^{१०}- -या या ६, १७४,

-पंथानाम् निष ४, ३, वा ६,

१७.

इतिपा पालव- -न; वा ६, १७.

इस्ती (म >) मा^{१०}- -मात् अप ४६,

६, ४.

इस्तीर्ण- प्रथु. ✓स्तु (आच्छादने) द.

इस्तीर्वि- पाठ ४, ५४.

इस्तु^{१०} पाया. अथा पर. स्तुती,

पंथये वा ६, २३, पंथव वा

५, २२, पंथत > वा आथी ९,

७, २७, ८, ६; शाथी.

स्तुते वीथी १७: २३, १८ १४.

स्तुति आथी १०, ८, ५; अप

४१, ५, ५, ४८, ११, वृदे, स्तुते

आथी ६, ५, १, १०, १६, ८, २, १,

१३, ३, शाथी, द्विथी ८, ५,

२६^१, आथी ४, १०, १८^{१०},

स्तुदन्ते माथी २, ४, ४, १४,

a) नाप (काथदभादि-स्तयक, इस्तम्ब- प्रथु) । b) वैप १ द्र । c) तु पागम । d) व्यप ।

e) वृ २७१८ ह द । f) स्ताम्बस्त^{१०} इति पाठ १ यनि शोध (ह द्विथी) । g) स्तर- > पं१ स्तर. इति

कवरातः, स्तर- (वृ-तु-) > -ती. इति P.W. प्रथु । सुषे (*सुषे) इत्यस्य पर्यायभूत सु-तर- > सत१ -रे इति

अप्यक्षर पाठ-शोध इति मठम् । h) पागे वृ २६९२ d द (यन यनि शोध) । i) = पल- (ह हददत

आथी ५, ५, १०१) । j) परसत् पागे. । k) पा ७, १३, ७९, ३, ९५, ८, ३, ६१, ६५ पाया ६, १, १५६

नीत् २, १, २२ परासृष्ट. द । l) पागे वृ २३१८ ८ द । m) इति पाठ १ यनि. शोध. (ह. ता १२, १०, १०) ।

स्तुवन्ति जैश्री १५: ७, श्राश्री
१२, २, १७, लाश्री ४, १०,
१८, आश्रिप, स्तोमि ऋष्य १,
३८-३९, ५, ४०, ३, अशा,
शुदे ३, १३५, स्तुम या १२,
२२, स्तोमशि^३ अश १, ४९, ३,
अशा ११, ३, ऋस्तुपे आश्री ४,
१५, २, ८, ६, १४, १८, श्राश्री,
ऋस्तोपत्त दिश्री १२, ६, ६, नाअ
४० १३, या २, २५, ऋस्तुव्य
कौम् २१, २३, ऋस्तुहि काश्री
७, ८, २, ८, १, १८, ५, ४४, ४,
शाश्री ७, २०, १४, ११, १०,
१०, आश्रिप १२, १७ १३०४, ४,
वाधुश्री, अशा २ ५१, १, स्तुव्यम्
ऋश्री ५, २, १२, १४, काश्रीस
३३ १४, शीश्री, ऋस्तुत आश्री
५, २, १४, श्राश्री ६, ८, ६, ७,
काश्री, लाश्री ५, ११, ९, वैताश्री
१७, ४^१, स्तोत > त श्राश्री ८,
१५, ऋस्तुवाशि भाति ११४,
१२०, ऋस्तादान आश्री ६, ४,
१०, ७, ८, २, श्राश्री १२,
२५, ७, वैताश्री ४२, ४, शीशि,
अस्तोय श्राश्री २ ८, १००,
१०, ६०४, शुद, अस्तुताम्
अश ३, ११, अस्तुवत काश्री
१७ १०, १०, आश्रिप १७
२, ११, शीश्री, अस्तुवन् श्राश्री
२ ८, ६७, १०, ५९ ६०, शुद
५, १२, ७ ९६, ९८, स्तुश्रीत
लाश्री १० २१, निम् २, १३

३१, ३२ २०, स्तुवात् लाश्री
२, ९, २२, स्तुवीरन् श्राश्री ७, २,
५ ४, ५४, श्राश्री, स्तुपु आश्री
१४ २३, १२ १४, शीश्री
स्तुवन्ति वीर्य १, ११, ११, ३,
८, ५
अस्तुवन् अश २, ३१
स्तुवात् श्राश्री १५ २२, १, २६,
१, वाध, वृष्टुवु शुदे १, ८१,
३, ६०४, ऋस्तुविष्यते आश्री
८, ३, १०, श्राश्री १२, १४,
१, स्तोव्यामि दिश्री १०, ८,
४४, सु ५ १, अश २०, ५
१, स्तोव्यामि आश्री ५, २,
११, श्राश्री ६, ८, ५, आश्री,
अस्तोवीर्य श्राश्री ३, ११४,
अस्तोपत शीश्री ५ १५ १३, १,
या ४, १९, अस्तोपि श्राश्री २, ८,
३२, अस्तोव्यन् या ७, २३
स्तुपे वाधुश्री २, ४ : २,
श्रीश्री १८६, शुदे, स्तुपेते शुदे
७, २८, ऋस्तुवन्ते निम् २, ३ :
२०, शुदे २, १४६, ४, १४२४, ४,
ऋस्तुवन्ते शीश्री १००, अस्तुवत
अश ४, ३१, स्तुपेते शुदे ४
१७, ६, ११
स्तोव्यते शुदे ७, ४५, ऋस्तुवाशि
श्राश्री १६, २१, २७, वैताश्री
४१, ५ निम्
ऋस्तुवन्ते- वास आश्री १४,
१६, १, दिश्री १५ ५१, माय
१२व- व शुदे २९, ७ ८५,

१११, -वम् शुदे ७, ३८, -ने
श्राश्री ५, १२
स्तुवन्- अम् लाश्री १०, ९, ३,
५, -नाय या ३, १९, ७, १२,
-नादि अश १, ३६, ६, -ने
निम् ६, ७ २१
स्तुव-वम्- अश्रिपि सु २३, १
ऋस्तुव- > 'वा'- -वा' आश्रिप
१, ५, २ ४३, वीर्य १, १८, ५
ऋस्तुवान- -ने आश्री १७, ८,
७, शीश्री १९, ५, ५२, -ना
श्राश्री ८, २
स्तुव- > 'व इव्य- अश्रिपि निम्
६, १ २
स्तुव- वा ३, १, १२३
स्तुव, वा- वा ८, ३ १०५, -त
श्राश्री ३, ८, १, श्राश्री १२,
३ १३, आश्री, दिश्री ८, ७,
१३, लाश्री २, २, १२, ५,
२, १०, -तम् आश्री ८,
१३ ४, ऋश्राश्री १२, १७,
१७, १७, १२, १४, शीश्री,
वैताश्री १७ ८, -तम् तम्
दिश्री १०, ४, १९, -तम्
ऋश्राश्री १२ १७, १७, १७,
१२, १४, शीश्री, वैताश्री १७,
८, -तम् ऋश्राश्री ५, ११,
४, ८, अश, -तम् आश्री ५,
१९, ४, दिश्री ३ ५, ५, ५,
अशा ८, १, शुदे, -तम् शुदे
४ ५४, ८, २३, ३८, -तम्
शुदे ३, १२७, -तम् शुदे १,

d) तु २७१६ श्राश्री । b) श्राश्री प्र वस (वा ७ १, ४६) । c) स्तुहि इति ० शोच ।

d) सवा अश ३७ ५६ इच्छ इति पामे । e) सु इति पाठ ? यनि शोच (तु श्राश्री) । f) पामे वैप १, २११९ b द । g) 'व्य इति पाठ ? यनि शोच । h) नैद < साननीव । i) वैप १ ५ । j) पामे वैप १ स्तुवा इति द । k) सवा काठ ४, ४ तुथ इति पामे । l) सवा श्राश्री ४ २, ३ तुथ इति पामे । m) सु इति पाठ ? यनि शोच (तु श्राश्री, ८२, ३) । n) पामे वैप १ अस्तुवन्ते ३, २, ७, २ इति द । o) पामे वैप १ अस्तुवन्ते ३, २, ७, २ इति द । p) 'व इति पाठ ? यनि शोच ।

७४, ८ ९१, -गास. वृदे ४
५६१, -से आश्री ५, १२, २६,
१७, ४ ६, १०, १७, आश्री,
-कृतेन आश्री २ ११, ५ वीश्री
३ ८ १३, -तौ शब्द २, ४,
३२, वृदे

स्तुत तम- मम् या ३, ५
स्तुत प्रष्ट- छानाम् जैश्रीक
१८२

स्तुत शब्द- शब्दो आपश्री
१४, ८, ३, १७, १२, १३, वीश्री,
लाश्री ५, १२, १, -छाणि वीश्री
१८, १५ २२, ५१ २५xx,
काश्र, -से काश्री १०, ७, ११,
माश्री २, ४, ३, ५, १६, वैश्री,
-छेषु माश्री ३, १५, ४, वाश्री
१, १, ६, १०, -से काश्री
४, ७२ ६, ८९ २७, २९,
निम् ९ ८०३

स्तुतशब्द-वत्- वदभ्याम्
हिश्री ८ ८, ५२, -वन्त माश्री
२ ५ ३, १३, वाश्री ३, १, २,
३५, हिश्री, -वन्तम् आपश्री
१४, १८, ३, वैश्री, -वात् वाश्री
३, २ २, १८

स्तुतशब्द त्रिकार- र आश्री
६ १०, २७

स्तुतशब्दो(त्र उ)पवन- न
आश्री ६ ७, १

स्तुत शब्द- शब्दे आश्री १,
१, २ ११°

स्तुत स्तोत्र- द्रस्य आश्री
८ ८, ६°

स्तुत स्तोत्र- मयो पा, पाश्री
८ १, १०३

स्तुत स्तोत्र- मस्य आश्री
६, १२, २, ११, वीश्री

स्तुतवत्- वात् वृदे २, ४२, ८,
६८

स्तुति- पावा ३, १५, -तय वृदे
१, ७५, या १, १०, २ १३, ७,
५ ७, -ति निम् २, १३ २५,
२७, ६, ७ २६, शब्द, -तिभि
आश्री २ ५, ७ १७, वीश्री १,
११, ११, ३, ८, ५, वृदे, -तिम्
निम् २, १३ २८, आपश्री १,
३२, १०, हिश्री, -तिम् वृदे
१, ८१, २, ३, -ती वृदे ६, ५१,
-ते वैश्री १६ ३ ३, वृदे २, ६,
या ६, १८, -ती वृदे १, ७६,
८५xx, -त्या वीश्री २४, १
१६, १७, निम् २, ३ २२, वृदे
१, ३४, ५, ७१, या २ ११xx

स्तुतिकर्म- संज्ञ वृदे ३, ४,
या १, ८, ३, ५, ४, २४xx

स्तुतिकर्म-त्व- त्वात् शब्द
२ ५, ४०

स्तुतिकाम्य- स्तुतिकाम्या-
भ्यया वृदे ८, २०

स्तुति क्रिया- या विप १६
१०

स्तुति-भास्- भाज शब्द १, ७

स्तुति युक्त- तम् या १४,
२८°

स्तुति-व्यवहृत- शम् मीम्
१०, ६, ४३

स्तुत्य(ति श)र्थ- र्थेन मीम् १,
२, ७, ४, ३०

स्तुत्या(ति आ)शिस- तिपी
वृदे १ ८

स्तुत्याशीर(र-थ)निधान-
नात् मीम् १२, ४, १

स्तुत्य- पा ३, १, १०५, -त्या
वीश्री २० ३°

स्तुत्या द्र(श्री) ३, ४, २६, २८xx,
लाश्री १, १२, १२xx, ३, ६,
११°, निम्

स्तुत्व- वत वैश्री १७, ११ १२,
वीश्री २, २, ८०, नाम १६

२४, ४२ १०, -वता वृदे २,
५४, -वताम् अप १८°, १,
५, -वते लाश्री १२, १६, ११°,
आपश्री २२ ६, ७, ७, ११°,
हिश्री, -वति वृदे १, १०, -वत्
वृद १, ६, २, ४०xx, -वन्त
शब्द १, ७ ३०, -वन्तम् वृद
१, ९

स्तुवान- न वीश्री १८, ४३ :
८, २६ ३३ १३, वैश्री ११ :
१९, -नम् वीम् ८, २४°,
अप ३२, १, ३१°, अल, -नाम्
लाश्री ८, २, २४

स्तुवेद्य- पाठ ३ ९९

स्तुवेद्य- पाठ ३ ९९, -स्यम्
या ११ २१°

स्तुवमान ना- न. आश्री १५ २२,
१, निम्, -नम् आपश्री १२,
१७, ११, हिश्री ८, ५, ५१xx,
अप ६, ५, -नस्य वीश्री २,
२, ८०, -ना शब्द १, ५ २४,
६ ४xx, वृदे ५ १३, -नाम्
या ११ ९, -ने काश्री ९, ७, ३,
१०, ३, १८, १३, ४, २, आपश्री
१२, १७, १४, २८, ७xx, माश्री

स्तुतोत्थे मन्त्रा २, ७३

१) उप = उत्तर- १ २) व्यप । ३) पामे ३ २६५७ ७३ । ४) वत । ५) पामे ६ ११
स्तुतोत्थे मन्त्रा २ ७३, टि ६ । ६) 'सु' इति मन्त्रमन्त्र शिपल. य । ७) सु' इति पाठ २ वति
शोष । ८) र्थेन १६ । ९) पामे ६ ११ । १०) वत् ११ । ११) वत् ११ । १२) वत् ११ ।

स्तोत्र्य- न्यम् वा ११, २३;
 -स्यानि वा ७, २.
 स्तोत्रम् श्रुते ६, ६२.
 स्तोत्र-^१००. वीथी १५, ६ : १५,
 २४ : १३; वाथी, -वा काथी
 ८, १, १६; छत्र २, ११ : १८;
 या ३, १९; -वारः काथी ५,
 ११, ७, वा ७, २, -नारम् द्विगे
 १६, १, ३९, वा ४, ६१, -न्तु
 अत्र ४८, १५, -नृमिः श्रुते १,
 २३; -^१नृभ्यः आपथी ३, १३,
 १, १६, ३५, ५, माथी, -गणाम्
 निप ३, १६, अत्र १६, २२;
 -^१त्रे^० आपथी १६, ११, १२;
 वैथी १८, १० : ५; द्विथी ११,
 ४, १३; श्रुत ७, ३१.
 स्तोत्र-नारम्-^१मानि विप ३,
 १६, वा ३, १९.
 स्तोत्र^०- वा ३, १८१, -अम्
 आथी ५, १०, १; ९, ११, २१,
 काथी, आपथी १८, ६, १५, ०,
 वीथी १७, ३ : ८, २३, १९ :
 ४०, -नारम् काथी १७, १७, ३,
 वाथी ४, १०० : १४, वैथी,
 -गणाम् काथी ६, ८, ८, निम्
 २, ४, ११, ८, २ : १७, -नानि
 काथी १४, २, ३, ४, २, १२,
 ६×४, आपथी, -प्राग् वीथी
 १७, ५९ ८; १८, २९ : १;
 निम् २, ९ २६, -त्राय काथी
 ५, २, ११, काथी १४, ५ ३०,
 १५, ७, २४, -त्रे आपथी ९,
 ११, १, १४, १०, ८×४; वीथी,
 -श्रेयः त्रे काथी १३, ११, १९
 १४, ३२, ९, आपथी १४, २२,

६; २२, ११, ५; १०; द्विथी,
 -त्रेण आपथी १२, २९, ५;
 १४, २९, १, द्विथी १५, ७, १४,
 अथय ६, ३, अत्र ४, ३, २;
 -श्रेयः वीथी ६, २९ : ३, लाथी
 २, ७, ४; -श्रेय आथी १, १२,
 २१; काठथी १६६, मलथी, -त्रैः
 काथी १५, ५, ६, वीथ १, ११,
 १२; अत्र १, ४२, ४.
 स्तोत्र कारिन्-^१रिणाः मीम् ३,
 ५ २६.
 स्तोत्र-अह-^१हः वैथीका १५२,
 -हम् वैथीका १६१.
 स्तोत्र-देवता-^१ना लाथी ६,
 १, ४.
 स्तोत्र-प्रदेश-^१ना निम् ६,
 ७ : १
 स्तोत्र प्रसव-^१नाथ काथी ८,
 १५, ४.
 स्तोत्र भक्ति-^१नि वीथी २५,
 २१ : १; २; १३
 स्तोत्र-मोह^१-^१दे काथी २५,
 ४, २२.
 स्तोत्र-वय द्राथी १२, २, १७,
 लाथी ४, १०, १७.
 स्तोत्र-वय-^१ववाच काथी ७,
 १०, २.
 स्तोत्र-वय-^१नोन निम् ३, ११.
 १८
 स्तोत्र वेला-^१काथाम् लाथी ९,
 ७, १५.
 स्तोत्र व्यवसाय-^१न्य निम् २,
 १ : २९
 स्तोत्र-खन्-^१खन्त् निम् २,
 ४ : २७, -खन्त् निम् २, ४ २३

स्तोत्र दस्य प्रविशता(२-अ)
 धैर्वा(वै-आ)दि-^१द्विषु वैथी
 २१, ४ : २.
 स्तोत्र-दस्य-भक्ति-^१क्तिः
 वीथी २५, २१ : ३.
 स्तोत्र-समीप (२ >) न्ती-^१
 -न्ती लाथी ६, २, २२.
 स्तोत्रा(२-अ)दि-^१न्ती लाथी
 ६, १, १५, ७, ६, १७
 स्तोत्रा(२-अ)तुजाल-^१नम्
 काथी १, १, ६, ५
 स्तोत्रा(२-अ)तुमन्त्रण-^१नाथ
 वेलाथी १८, १७.
 स्तोत्रा(२-अ)न-^१नार काथी
 १३, ३, २७, द्राथी ११, ३, १४,
 लाथी ४, ३, २२, -न्ते काथी ९,
 ७, ४, काथी ३, २, ५, ५१, वैथी.
 स्तोत्रा(२-अ)रवर्ग-^१र्गे गाथी
 २, ५, ३, ६.
 स्तोत्रिय, या-^१न्यः काथी ७, २,
 ५, १२, १०, ८, १३, १३, काथी,
 -नम् काथी ६, १०, १७, काथी
 ७, १४, २, ९, ५, २×४, काथी,
 -नया द्विथी १७, ५, १, -नरय
 वेलाथी २५, ४, -नयाः काथी ६,
 ५, ६, ८, ५, १२, काथी, -पाणाम्
 काथी १३, २०, ५, -नान्
 काथी ९, ६, ६, काथी ११, ३,
 २, १२, २, २४^२×४, वेलाथी
 ३१, १७, -नारयः काथी १३,
 १५, ८, -नारय काथी ६, ३, १८,
 काथी ७, २१, ८, वेलाथी २०,
 १८, -नारया वीथि १२, ४०^०,
 -नारयम् काथी १७, १७, ५,
 -नारान् काथी १७, १४, ४, १५,

a) पाठः १ परतोत्तमम् इति शेष (४ अर्कं द्विषुः) । b) धामे वैप १ स्तोत्रे अ १०, १५६,
 ५ टि. द. । c) वैप १ द. । d) धामे. वृ १८३२ ए द । e) अत्र, वीथी २६, २२ : ५ स्तोत्रम् इति पाठे ।
 f) उप. = विपरीत- । g) = विद्वत्-विशेष- ।

१; माथी २, ५, २, २२; -ये
आथी ८, ५, १५; शाथी ९, ६,
१०^५××; बृदे; -येष आथी ५,
१०, २६; शाथी ११, २, १३;
श्रीय ३, २, १; शाथ ३, ४, ५;
-वी आथी ८, ७, ९.

स्तोत्रिय-त्व- -त्वात् शाथी
७, २५, १७.

स्तोत्रिय-निवम-एण्डम्-
-भ्रसा वैताथी ४२, १०.

स्तोत्रिय-विकार- -राः
वैताथी ३९, १.

स्तोत्रिया(य-अ)नुरूप^१- -पः
आथी ७, ४, ५; -एयोः शाथी
८, ७, ११; वैताथी २६, ३; -पाः
आथी ५, १०, १८; १४, ८;
१५, १३××; शाथी; -पाणाम्
आथी ७, ४, ५; शाथी ७, २६,
१२; वैताथी २२, १; २५, ५;
-पात् आथी ९, ११, ४; शाथी ७,
२६, १६××; -पाभ्याम् आथी
६, ३, २; १३; शाथी ७, १४,
६; १२, ३, १६; द्विथी ९, ७, २७;
-येभ्यः आथी ५, १०, १३; ६,
१, ५; ७, ४, ६; ९, ५, ५; -पेयु
आथी ६, ४, २; -वी आथी ५,
१०, २८; १५, २××; शाथी.

स्तोत्रियानुरूप-संविदात्-
-ते आथी ९, ६, ७.

स्तोत्रिय-पा^२- -यः आथी ८,
१, १५; छम्; -यम् द्विथी १६,
२, २४; द्राथी ८, २, २१; लाथी
४, ६, २०; ६, ३, ६; निम्
४, ६; १८××; -यथा लाथी
१०, २, १०; -ययोः लाथी ६,

१, १९; निम् ७, ६; १५; -यस्य
निम् ३, ३; १६; -या आथी
२२, ११, ५; १०; लाथी ७,
३, १३; उनिम् ६; २७; -याः
आथी २२, १, ७; वीथी;
-पाणाम् लाथी ६, ५, १९;
निम् ७, ७; ३७; ८; ११××;
-पाणि निम् २, २; १५;
-यात् निम् ५, १; ७; -याम्यः
द्राथी ९, ४, ६; लाथी ३, ८, १;
-याम् आथी २१, २५, ६;
७; वीथी २९, ४; २०; निम्;
-यायाः वैथी १६, १८; १८;
द्विथी ९, ४, ३४; निम् ४, १;
३९; ४०; -यायाम् आथी
१२, १७, १५; १३, ३, १××;
द्विथी; -पातु लाथी ६, ३, १४;
२३; ६, १६; ८, ६; ७, ५, १; -ये
लाथी ६, १, १८; ७, २, ६; १०,
७, ९; छम्; -येण निम् ४,
४; १४.

स्तोत्रिय-पर्याप्त- -सयोः
छम् २, ५; १८.

स्तोत्रिय-दिति- -धिः निम्
५, ३; २.

स्तोत्रिया(य-अ)नुरूप-
-एयोः लाथी ७, १२, २; -पाणाम्
निम् ५, १; १०; -यात् वैथी
१७, १; ४; निम् ५, १; ९.

स्तोत्रिया-सम^३- -मत् छम्
१, ७; ३०.

स्तोत्रो(अ-उ)त्त (म>)मा-
-भ्यायाम् निम् २, १; ३१.

स्तोत्रो(अ-उ)त्स्वार- -राय
आथी ५, २, ९.

स्तोत्रो(अ-उ)त्कारण- -णः
आथी २१, १०, ४; -णम्
आथी १२, ६, १; ९; -णत्
द्राथी १०, १, ३; लाथी ३, ९,
३; वैताथी १७, ३.

स्तोत्रोपाकरण-काल- -ले
माथी २, ४, २, २२; ६, १२.

स्तोत्रोपाकरण-प्रभृति- -ति
वीथी २९, ४; २१.

स्तोत्र्य^४- -यम् द्विथी १५, ८,
४७.

स्तोत्र, मा^५- पात् १, १४०; पा ८, ३,
१०५; -म. आथी ४, १२, २१;
८, ११, ४^६; १३, ३३; शाथी;
-मत् आथी ३, ७, १३; ८, १;
४, १३, ७; ५, ५, १९; ६, ७,
२७; ७, ७, ८; आथी ४, २,
१०××; १०, १, १७^६; आथी;
वीथी १७, ४०; १; २६, २२;
५^७; भाथी; -मयोः लाथी
९, ४, १८; -मस्य वीथी
१४, २; २४^१; द्विथी ११,
७, ५, १^१; लाथी ८, ५, १३;
निम्; -माः आथी ९, १, १७;
लाथी २, २१, ७××; वीथी;
वाथी २, २, ५, २०; -मात्
काथी २५, १३, ४; निम् ८, ४;
२०; -मात् आथी ४, ११, ६;
शाथी १८, १८, २^१; वीथी १६,
३५; ८; छम्; -मानाम् शाथी
१४, ३१, ३; १६, २४, १०; वीथी;
-माभ्याम् वीथी १८, ५०; १;
-माय वीथी १६, ७; ४;
-पनासः आथी ३३, २१, ३;
वीथी ३३, २४; १२; द्विथी ९,

०) इ. तांश १७, १। च. ऋषिभित्ति C. (इ. शाथी ७, ११, ८)। ४) मत्से. कठ.। ८) वैप २,
११. द.। ६) उप. = ११म-। ८) = स्तोत्रिय-। प्र. शिष्यः। ९) वैप १; २, ३ धं. द.। १०) पथि.
११) इतोमः ता १, ८, १०- द्वि. द.। १२) पथि. वृ २७१९ C द.।

५,४२; -मे आधी ७, १, १;
 ११, १; साधी; -जमन आधी
 २, १, २२; छ, १२, २; साधी,
 शीव् ८९, ११; -जमभिः आधी
 ८, १, १२; प्राधी; -जमोप्यः
 सीधी १४, २९ : ३०; ३४;
 -मेसु साधी ६, ५, १; निव्
 ६, १ : १५; ८, ८ : ४४४; -मैः
 आधी २, ७, १०१; ८, १४१;
 ८, १२, १५१; १२, ५, १६;
 १८; १९; साधी; -मौ साधी
 १४, २९, ४; बाधी २२, १०,
 ३३; शीधी.
 स्तोम बलव- -स्वाप् निव् १,
 ७ : ३७; ७, ७ : ३८; १२ : १३.
 स्तोमकल्प(ल-प्र)थ- -थेः
 निव् ८, १ : १५.
 स्तोम-कारण- -गाव् आधी ७,
 ५, १०.
 स्तोम-कारि- -गः निव् ७, ६ :
 ९; ९ : ८; ८, ८ : ३६४४; -वम्
 आधी २, १, १४.
 स्तोम-चोदना- -गा साधी ९,
 ११, १३; १४.
 स्तोम-छन्द- -न्दसि छुप् ३,
 २ : ३.
 स्तोम-ज्ञाप- -श्रेण निव् ३, ६ :
 ३३; ३४; ८, ४ : २४; १२ :
 १०४४.
 स्तोम-वत्त(ः) शीधी २६, १४ :
 १७; निव् १०, १३ : १४.
 स्तोम-व्यथि(व >) आ^०-
 -थे आधी ४, १२, ११^०.
 स्तोम-विह्वल- -स्ताः आधी
 ६, ६, ४.

स्तोम-वृत्त- -गम् साधी ६, ६,
 १२.
 स्तोम-वृष्ट^०- -ष्टा^० आधी १,
 १२, २७; प्राधी ९, ३, १; भाधी.
 स्तोम-वृष-संस्था- -स्थाभिः
 आधी १०, ५, १८.
 स्तोम-वृषपर्या(स्था-अ)
 ग्यव- -स्वाप् आधी ९, १, १२.
 स्तोम-व्यथपरोह- -हः निव् ६,
 २ : २३, २ : १३; ८, १२ : २४;
 -हृत् निव् ८, ११ : १७; -हे
 निव् ६, १ : १४.
 स्तोम-व्यथवाप- -थे निव् ४,
 ६ : १७.
 स्तोम-व्या(द >)दा^०- -दाः
 निव् २, ११ : १.
 स्तोम-भाग- > मि(ह >)
 की^०- -कीः वैयाधी २२, ७.
 स्तोम-भाग, गा^०- -गः वाधी
 १, १, ६, ५; -गः वाधी १७,
 ७, १६; ११, ९; भाधी; -गन्
 आधी १४, ८, २; शीधी १४,
 २० : ४; वाधी, -गानाम् आधी
 १४, १०, ३; वैयाधी १७, ७;
 -गेव वैयाधी १७, ६ : ७, ८; भाधी
 १५, २, १५; साधी ५, ११, १५.
 स्तोम-योग- -गः निव् ७, ७ : ५;
 ९ : ११; -गाव् आधी २, ४,
 २०; ६, १, ११, २, १; साधी १,
 ८, १४, २, ९, ७; १०, १, -मे
 आधी ४, १, १; साधी २, १, १.
 स्तोम-व्या- -वीन साधी ८, ५,
 ११.
 स्तोम-विकार- -रः निव् १०,
 ७ : १३; -रम् साधी १०, ५,

२; निव् १०, २ : १९; -रे
 साधी १३, १, ४.
 स्तोम-विह्व- -वम् निव् १०,
 १२ : ३.
 स्तोम-विचार- -राः निव् ८,
 १३ : ४८.
 स्तोम-विधा- -धाव् निव् ९,
 १ : ५३.
 स्तोम-विधान- -न्य साधी ६,
 २, १.
 स्तोम-विमोचन- -नम् निव् ६,
 २ : १२; १३; -नात् आधी १४,
 १, ४; साधी ७, ५, २.
 स्तोम-विपुदि- -धी गीव् ५,
 ३, ७; १०, ४, १८; ५, १५.
 स्तोम-वाप- -थे प्राधी १७,
 ३२.
 स्तोम-व्यथ- -थः निव् ६, १३;
 १४; ७, ३ : ४२; -धाव् निव् ६,
 ११ : २४.
 स्तोम-संस्था- -नात् साधी
 ६, १, ५.
 स्तोम-समाज्ञाप- -गः निव् ३,
 २ : ७; ८.
 स्तोम-संभव- -वाव् साधी ६,
 १, १.
 स्तोम-सामान्य- -म्वाव् गीव्
 १०, ५, ४८.
 स्तोम-सोम- -मयोः शीव २,
 १६.
 स्तोम(म-अ)विशंसन- -राय
 शीधी १५, ११, ५.
 स्तोम(म-अ)स्वविन्- -वी
 निव् २, ४ : ३९; -वीनि निव् ८,
 १३ : १०^०.

a) पामे. वैप १ स्तोमेन मा ३, ५३ टि. द. । b) वैप १ द. । c) पामे. वैप १ द. । d) पामे.
 वैप १ स्तोमवृष्टः टि. द. । e) वस. । f) = [स्तोमभागा-वृष्टका- । मथर्थे छ्व प्र. उरु. (पा ५, ३, ११५) ।
 g) 'मवृ' इति कर्त्त. । h) उव, उव. कर्त्तरि प्र. । i) 'वीनि' इति पाठः १ पानि. शोधः ।

स्तोमा(म-अ)न्वित,वा- -ता
निस् ८,६ १, -तामि निस् ४,
१२ १४,१७

स्तोमा(म-अ)भ्यास- से हिथी
२,१,११

स्तोमा(म-अ)कन्- -नम् काथी
९,८,६, १२,६,१५

स्तोमो(म-उ)सगी- नी काथी
२४,७,२४

*स्तोमन्- -मानि निस् ५ २
१८^०, वैष् ३ ४ १३^०

स्तोप्यमाण- ण माथी २,३,६,९,
द्राथी, -गानाम् द्राथी ५ २, ९,
लाथी २ ६, ४, -गेष् शीथी ९,
५१,१९,४

स्तुका,का^०-क वा ११,३२^०

स्तुका(का-अ)प्र- कौ ३२ ८

√स्तुच् पाषा भ्वा आराम प्रसादे

स्तुत-स्तुति- प्रष्ट √स्तु द

√स्तु।स्तु^०प् पाषा दिवा, कुत
पर समुच्छाये

√स्तुष्- पावनाट ३ २५, -व माथी
१ १,१,३०, २ ६, १, वाथी १,
२ १,१५,३,३,६^०

√स्तुभ्,म् (वषा.)^० पाषा भ्वा
आराम स्तम्भे, √स्तोमति ऋषधट
९^०, निष ३, १४^०, अस्तोमत् वा
७,१२, स्तोभेत् वैथी १७ १९^०,
द्राथी, स्तोभेत् लाथी ७,७,२
सुवप- -श्वेषु लाथी ७, ५, २३^०

√स्तुभ्- स्तुप्/नष ३, १६, स्तुभ
काथी ३,७,९, वीथी ९,६ ५

स्तोम^०- -म द्राथी १३, ४, १२,
लाथी, -भम् वैथी ५ ४, २२-
५, द्राथी, -मस्य लाथी ७ ७,
१५, मीस् ९, २, ३४, -मा
द्राथी ६, १, २०, लाथी २, १, १८,
७, ६, ५, २१, -भाद् वैथी २६
८, लाथी ६, १०, २५, ७, ९, १०,
निस् ३, १२ ३७, -मे द्राथी
३, ४, १३, -मेन लाथी ७, ७,
२१, -मे द्राथी ६, १, १६, १९,
लाथी, -मी द्राथी ३, ४, १४,
लाथी ७, ४, ३, १०, २३

स्तोभिक^०- -कम् लाथी ७,
५ ७, -कस्य निस् २, १०: २४,
-कै निस् २, १० १७

स्तो(म>)मी^०- -मीस्
द्राथी २, २, ३, लाथी १, ६, २.

स्तोभ घर्मे- -मैङ् लाथी ७, ९, १६

स्तोभ विभास- -ग्य, लाथी
७, ६, १२, -ग्यानि लाथी ७, ६,
३, -ग्ये लाथी ७, ७, १९

स्तोम सन्द^०-त्व- -त्वाद् मीस्
९, २, ३१

स्तोमा(म-अ)क्षर- -रे निस्
३, १२ २७, ३६, ४०, ४३

स्तोमा(म-अ)कन्- -त्वा, लाथी
६, १०, ६, ७, ८, ५, -न्ता लाथी
७, ६, ३

स्तोभति->श्रुति-उ)नरप(६>)
दा^०- -दा या ७, १२.

स्तोम(न>)मी- नी या ७, १२^०.

स्तुवत्-स्तुवान-स्तुवेव्य- √स्तु द
स्तुश.^० शीथी ८, १४, १

स्तुपेव्य- √स्तु द

√स्तुप् √स्तुप् द

स्तूप (वषा)^०- पाठ ३, २५, -य
√आपथी १, ३, ७, २, ८, ५,
वीथी १, १३: १४^०, भाथी,
आपम २, १५, ११^०, कौट
३, २, १०^०, शाण ३, ३,
७^०, या १०, ३३^०, -पम्
पाठ ३, ४, १८^०, -पस्य कौट
३, २, १४, शाण ३, ३, १०:
-पाव निस् ३, १३, २८^०, -वै
वीट २, ५, ५०^०

स्तुयमान- √स्तु द.

√स्तु, स्तु^० पाषा स्वा, वषा उभ.
आच्छादने, स्तुणोति गोष्ट ४, २,
२०, स्तुणुयाद् वैथीका १५३,
द्राष्ट १, २ ११, ३, ५, ८, स्तुणु
लाथी ८, ६, ३३.

स्तुणति शीथी ३, १४, १८, ८,
१३, ९, १०, काथी, स्तुणति
आपथी ११, १०, १७, भाथी
१२, ६, ७, ८, माथी, √स्तुणामि
आपथी १, १५, ४, २, ९, १४, ४,
वीथी, √स्तुणीन् प्रभाव २, ५,
आ ३७, ५, ८, √स्तुणदि^०

०) = यदीयप्रविशोप । १) वाप न (स्तुति-स्व) । २) स्तोमान्वितानि इति सूत्रे । ३) = वीथी स्तुती
मन्वाचारवना कुतुरिति भाव (तु सख्य भ्ररय>वे इति शोच (तु सूत्रे) । ४) वैप १ द. । ५) तु अपठ ।
६) पाणे वैप १ स्तुव वा २ २ टि द. । ७) स्तुष्ट इति सूत्रे । ८) मन्वा ५ १२ वा ३ १, ८२, ८, ३, १५
पराकृ द । ९) वा अर्वावा इति । १०) सुम् इति पाठ ? यदि शोच । ११) इदमर्थे टक् प्र । १२) विप
(राप्) । १३) पत । १४) भवति इति शिष्य । १५) वैप १, १४१२ ० द । १६) = धनाराडाव्य विधेय- ।
१७) भरतार पाणि । १८) दृष्टे इति पाठ ? यदि शोच (तु शाण) । १९) वृ २४४३ k. द । २०) = श्रमन्य-
रिपान्देव (तु ला [ता ३, ४, ४] । २१) वा ७, ३, ८०, ४, १५ पराकृ द । २२) पाणे वैप १ स्तुणदि वै ६, ३,
१, २ टि. द ।

आपथी १२, १७, १९; वीथी;
 पंस्तुणीहि^० काथी ९, ७, ४;
 आपथी १२, १७, २०; १३, २, १;
 ११, १; वैताथी १७, १२;
 पंस्तुणीत आथी ३, ३, १; शथी
 ५, १७, २; आपथी; माथी १,
 ३, ५, २६^{१७}; स्तुणीयात् आपथी
 ९, २, २; १९, १९, ११; वीथी.
 पंतिस्तिरे श्रथा ५, २९.
 पंतिस्त्रिात्र^० - ग्वा श्रथा ५, २९.
 स्तरण- -गम् काथी ८, २, २७; ६,
 २७; ७, १३, ४; गाथी; -गात्
 काथी २, ६, ३०; वीथी २०,
 २१: ४; भाथी; -गे श्रथाथी
 ११, १५, ४; वीथी.
 स्तरणी^० - जीम् आथी
 ११, १०, १७; भाथी १२, ६, ८;
 हिथी ७, ४, ६०.
 स्तरण-काल- -के आपथी ८,
 १४, ४; ११, १९, २; १७, १६,
 ९; काथीसं २८: ४.
 स्तरण-मन्त्र- -न्तः आपथी ११,
 १९, ३.
 स्तरण-यत्तुम्- -तुषा काथी ५,
 ६, १३.
 स्तरण-शेष-कुषा- -शेषु पाथ
 २, १७, १३^०.
 स्तरणा(श-अन्त >) न्ता^०-
 -न्ताम् आपथी ८, ५, २३; वैथी
 १६, २४: ११.
 स्तरणा(श-आ)दान- -नात् कथ
 १, १, ८.
 स्तरणा(श-अ)थं- -थं वीथी २८,
 १३: ९; कथ १, २, ४^०.

स्तरणा(श अ)वगथ^०- -धम्
 वीथी १७, ४८: ३.
 स्तरिमन्- पाठ ४, १४८.
 स्तरिन्वात्- -न्वम् वीथी २०, २१;
 ५.
 स्तरिमन्- पाठमो २, १, २९७.
 स्तर्यां- पा ३, १, १२३.
 स्तोत्रं,र्णं- -र्णम् पंभाथी २, १४,
 ३१; ८, १, १२; पंश्राथी १, १७,
 १९; १०, ७, ४; ८, ३; आपथी;
 -र्णस्य वीथी ६, २०: ४;
 कौम् ३, ५; -र्णानि या ३,
 २०; -र्णम् वैथी ५, ६: ६;
 हिथी ६, २, ११; -र्णायाः
 वैथी १४, १: ८; हिथी ५, ३,
 ११; ७, ४, ११; -र्णायाम् काथी
 ११, १, ११; -र्णं श्राथी २, ३, ८;
 ६, १०, ६, आपथी, -र्णेषु श्राथ्यो
 १२, ३.
 स्तीर्थं बर्हिषः^० - र्हिषे पंभाथी
 ७, ११, १४, १७.
 स्तीर्थां श्राथी १, १५, १५; आपथी.
 स्तीर्थे श्राथिय ३, ९, २: १३.
 स्तीर्थेमाणा, -गम् भाथी ४, ८,
 २; माथी १, ४, ३, ४; वैथी,
 -पंषा आपथी ४, ६, २; श्राथी,
 -गम् आपथी ४, ६, २; हिथी
 ६, २, १०; -णायाम् श्रथा ३, २.
 स्तुण्- -गत् आथी १, ११, ९;
 काथी २, ६, ३३××; आपथी,
 -गन्तः वीथी ६, ३०: ८, २१,
 १५: २५; २६.
 स्तुत्- -ताः कथ १, २, ४
 स्तुत्-वासम्^० - ससि कैथीका

१०८.
 १स्तुति->स्तुति-वेत्त- -वे वैथी
 २१, ७: ११.
 √स्त्रु (हिंसायाम्), स्तरते अप ४८,
 १९^०.
 स्तुण्ते श्राथी १४, २२, २२;
 वीथी १४, २१: ३२; वाधुथी ३,
 ४५: ९; वैथी; अप ४८, १९^०;
 स्तुणीत् वाधुथी ३, ४५: ९.
 स्तुणाति निप २, १९^०.
 स्तुतः कथा १, ९, २^०; स्तुतः कथा
 १, ८७^०.
 स्तुतुर्थेमाणा- -णः वाधुथी ४,
 १००: ३२.
 स्तुतुर्वे^० अथा ३, ४, १^०.
 स्तुत्- -तः कौम् ४७, २९; ३८;
 ४८, २१.
 स्तुति- -वै हिथी २१, २, ४३^०.
 स्तुत्वा काथी २२, ११, ३२.
 स्तु^०- स्तुण वेजो १४; स्तुणाम् वेजो
 २२; पंस्तुमिः अप ४८, १२०^०;
 निप ३, २९^०; या ३, २०;
 स्तुणाम् वेजो ३१.
 √स्त्रुह पाषा. भा. पर गती.
 स्तुण्त्- -स्तुत्- -स्तुति- √स्त्रु
 (आच्छादने) द्र.
 √स्त्रुह पाषा तुदा. पर. हिंसायाम्.
 स्त्रुह(ह >)थी- -नीष आपथ १,
 ३१, ९^०, हिप १, ८, २८.
 स्तुतेग^०- -गात्^० आपथी २०, २१, ९;
 वीथी १५, ३५: ४, ५, हिथी
 १४, ४, ५५.
 √स्तेन पाषा तुदा. पर. चंभे.
 स्तेन^०- पाठमो २, २, १८४; पाठ २,

a) पाठे. घृ २७२२ W द. । b) स्त्रुत् पाठे. वैप १, १९५१ j द., अन्यत्र ही ७, १०४, १ विभे. ।

c) वैप १ द. । d) =कृत्-विशेष. । e) *कृत्वेणु इति जयरामः, *पठ कृत्वेणु इति गदाधरः । f) वत. ।
 g) चर्षणा इति जीतं । h) घृ २५७ f द. । i) पाठे. वैप १ ही २, २७, ४ टि. ६. । j) स्त्रुह इति पाठः ।
 यति. शोधः (टी. हिप) । k) पाठे. वैप १, १५०० पृ द. ।

४ ३१, ५१, १२४^०, -न शाश्री
 १२, १५, ४१, वीथी १, १
 १३१, ९, १८ ५, वैश्री, -नम्
 अप्राय ३ ८, का ३, २, ४,
 श्रुता २, ४४१, -नस्य श्रु ४८,
 ८३१, निष ३, २३, -मा द्विथी
 ११, ३, १९^०, आपथ २, १६,
 १, विष ५ ८९, -नाम् वीथ
 २, १, १६, -नाम् आपथी
 २१, १२, १, ३, द्विथी, -ने अप
 ३, २, ५

स्त्वै- पा ५, १, १२४

स्तेन स्त्रीय पतित नातिक तद्दृष्टि-
 वीथ(ह-अ)वेदिविषु दिधि-
 पूरति-स्त्रीप्रामथलवा(क अ)ज
 पलो(ल-अ)मृष्टाणि मदवप
 उचर-वृटसाक्षि प्रातिहारिक-
 कान् गीव १५, १५

स्तेन शाम्- अ वा ४, २४,

-गानि निष ३ २४, या ३, १९

स्तेन-विक्र-वर्जम् कौट ५७, २०,

√स्तेप् पावा भा आत्म धरण

स्तेय^०- वा ५ १, १२५, -यम् वीथी

२५ १४१, २४, १२ ६,

आपथ, -यस्य पावा ३, ३, ५८,

-ये आपथ २ २७, १६, विष

५, ६, द्विष २, ५, २३५

स्तेय-किलिय- यम् गीव १२,

१२

स्तेय साहस वाग्दृष्टपारण्य सप्त

हण- ण्यु निष ८, ६

स्तेय हार विनाजन^० नम् पाष

१६ २५

√स्ते पावा भा पर वेष्टने

स्तोक,का^०- पाठभो २, २, ४,
 पा २, १, ६५, -पक आपथी
 १, १३, ७, वीथी १, १
 १९, माथी, -कम् काथी २५,
 १२, १२, -का विष ५, १८३,
 -का आपथी २१, २२, ५,
 वीथी १५ ६ : १८, २४ १६,
 वाधुथी ४, ७४ ५, द्विथी १६,
 ७, १७, कौट, या २, १, -कान्
 आपथी २०, ४, ५^०, वीथी २०,
 ४ १९, २२, माथी १, ८, ४,
 ६, -कानाम् आपथी ७, १८,
 ११, २०, ११, वीथी ४, ७ ३१,
 २०, ४. २१, २३, माथी,
 -केन आपथी ६, ६, ७, द्विथी
 ३, ७, २२, -केभ्य आथी ३,
 ४, ११, माथी ५ १८, ११,
 काथी ६, ६, १७, आपथी ७,
 २०, ३, काठथी ५९ वीथी,
 -केषु आपथी ७, २०, ३, वैथी
 १०, १५ १७, द्विथी ४, ४, २२

स्तोक-मूल- कस्य आथी ८
 १२, ५

स्तोत्र(व-अ)दि- दिग्म पा ६
 ३, २, पावा ६ ३, १

स्तोका(क-अ)न्तिकदूरा (र-अ)
 र्थ-कृष्ण- मृष्टाणि पा २
 १, २९

स्तोका(व-अ)ल्प कृष्ण कतिपय-
 न्यरप पा २, ३, ३३

स्तोत्री(य>)वा- या वीथी
 २५ २० १, २, २५ ३४
 ६६, वैथी १०, १५ १८, वृदे
 ५, २५, -याभि वीथी १५,

६-१६, २४ : १४, -पासु^१
 वीथी ४, ७ ७, १८, २२ २,
 स्तोको(कठ)ति- नितम् वीथ १,
 ६, २५

स्तो(ज्य>)क्या- क्या शाथी
 १५, १, २५, वीथी २४, ३७ ७,
 माथी ५ २, ८, २, वाधुथी ३,
 ८३ २, -क्यानाम् शाथी १०,
 १२, १५, वाधुथी ३, ८३ : १, ५

स्तोतये, त्वय्य- प्रसु √स्तु द

स्तोष-, भति- प्रसु √स्तु द

स्तोम-, भन्-, ष्यमाण- √स्तु द

स्तोमिक-, स्तोमी- √स्तु द

स्त्येन- पाठ २, ४६

√स्त्वै^२ पावा भा. पर शब्द-

उपातयो > स्त्वायन- न्वात्

या ६, १७

स्त्री^०- पाठ ४, १६६, द्विष काथी
 २१, ३, ८, काठथी २४, वीथी
 २, १० : ३५१, २०, १ ६२,
 माथी, वाप ५, ८१, १६, ३०,
 आपथ १, १४, २१; २३, वीथ
 १, ५ ४९, १४, विष १८, ४४,
 ४४, ४५, द्विष १, ४, ५०, ५२,
 नाथि २, ८, २९^१, शिवम् शाथी
 २ ८, ६१, आपथी, शिवा^१शाथी
 २, ८, ६, ८, ११, १३, आपथी,
 शिवा शाथी २, ८, ६१ काथी,
 पा ६, ३, ३४××, शिवाम्
 कौट १, १२, ११, नाथि
 १, १९, ६१, आमिष, शिवे
 शप २२, शिवे काथी ६ ६,
 पाठ १, १२, ४, ७७, ३, १८,
 ६, आमिष, श्री काथी १६, ११,

०) वृ पापम । १) पाठ १ स्तेनान् इति शेषे (तु सप्त मे ३, १, १) । २) वेप १ द ।
 ३) रामादोरे द्रम । हार- = दरल- । ४) पाथे वृ ४९८ द द । ५) सप्त स्तोकेषु <> स्तोकीयान् इति पाथे ।
 ६) कर्षः १ । ७) या ३, २१, १०, ३३, ११, १२ पराम्ब द । ८) ष्यम् इति भासिम् । ९) उत्तरेण संविचार्य-
 (१) तैम ३, १२, २, ९ सिद्धे चामातुम् इति ।

१७; पाथी १, १, ७; भावती;
 वाधुश्री ४, २७: १२; २९:
 ४-७×४; आपसं १, ४, ७^{१५};
 भाव १, १३, ६१^०; पाय;
 गुध १२^०; स्त्री: वैश ६६: १;
 भावण ४, १२^१; हिण १, २०, १;
 हिनि १४: ४; भावण २, ४,
 १२; भाभ २, ८, १; स्त्रीणाम्
 शीश्री ४, १६, ६; १४, २९, ३;
 १६, २, ३६^१; वाधुश्री: स्त्रीभि:
 फाण १, १७; भाण्ड ४४: १३;
 भाव; स्त्रीणव: भाश्री ८, ६, २;
 भाण २, ५, ५; ८; पाण; वा ४,
 १, १२०; स्त्रीम् कम् ३, १, ६;
 भा ६८, २, २७; स्त्रीषु वीथी
 २, ५: १३^१; भाण ४, ४, २०;
 २३; आणित्; वा ४, २, ७६;
 स्त्र्याम् भाश्री २, २, १.
 स्त्रीण- वा ४, १, ८७.
 स्त्री^० पावा ३, ३, १२६.
 स्त्री-कर्म-व्य- -वम् विध ७४, ६.
 स्त्री-काम, मा- -म: श्राण १, ७, ४;
 आणित् २, ४, ४: ३; वा ५, १६;
 -माया: वैश ३, ९: ११.
 स्त्रीकाम-वम- -मो भावण २,
 १४, १३; हिण २, ३, २४.
 स्त्री-कुमार- भाण २, ४, ११; २, ३, २७;
 -वम् आणित् ३, ७, ४: २६; -रा:
 वैथी ९, ३: २; -राणाम् वीथि
 २, ४, १२; ३, ६, ४; -वम्: वीथी
 ५, १०: १६; वैथी ९, २: ८.
 स्त्री-कृत- -वम् विध ३, ३२; -ते
 गीध २२, ३८; -गाव् अण २०,
 ७, ५.
 स्त्री-काम- -वम् भावण २, २१, ८.

दिध १, ६, ३८.
 स्त्री-मो- -मो: भावश्री २२, ४, ६;
 हिथी १७, २, ८.
 स्त्री-ग्रहण- -गम् पावा ३, ३, ४३;
 ५, ४, १११×४; -गाव् पावा
 ४, १, २५; -गे पावा ३, ३, ४३.
 स्त्री-ग्रहण- -ही विध ६, ३०.
 स्त्री-जन- -नम् अण ५, ५, १.
 स्त्री-जा- पावा ५, १, ११५.
 स्त्री-व्य- पावा ५, १, ११५; -वम्
 कम् ३, १, १३; -वाम् गीम् ९,
 १, ४४.
 स्त्री-घन- -नम् आणित् १, ६, १:
 १६; शंघ ६७; २७६; २७२;
 २९८; ३००; ३३२; विण १७,
 १८; गीध २८, २५.
 स्त्री-घर्म- -र्म: शंघ ३३७; वृदं ७,
 १५.
 स्त्री-न्युंसक- -क्यो: पावा ८, १,
 १२.
 स्त्री-ना(मर >)सी^०- -म्य: कुम्
 ३, ७: ४.
 स्त्री-निगद- -वे पावा ८, १, १२.
 स्त्री-नियन्वद^०- -न: भाश्री १५, ८.
 स्त्री-नृप- -पम् अण ५०, २, ३.
 स्त्री-नृपो(एय-ड)वजीनिन्- -वी
 शंघ ३७७: ४.
 स्त्री-पशु- -शुणाम् विध ६, १५.
 स्त्री-पाणि-ग्रहण- -गे वण २, ९,
 ११.
 स्त्री-पुं-वोग- -ने गीध ६, ६.
 स्त्री-पुं-लिङ्ग- -रूप पावा ४, १,
 १२.
 स्त्री-पुंस- -पुंसाम् लश्री १, ३,
 १९^०; -पुंसो: भाश्री ५, २,

९, २.
 स्त्री-पुंस- वा ५, ४, ७७; -सयो:
 अमा २, २, ३; -साताम् दाश्री
 १, ३, २१^०.
 स्त्री-पुंसवृत्त- -केय वा ३, ८.
 स्त्री-पुंसवृत्त- -मसौ शीश्री १७, ६, १.
 स्त्री-पुंसवृत्त- -पयो: शंघ ३३१.
 स्त्री-पौत्र- -त्रम् माण १, १०,
 १०^१.
 स्त्री-प्रकरण- -गे पावा ४, १, ३६.
 स्त्री-प्रजनन- -न्यम् अण ४८, १२४.
 स्त्री-प्र(ज >)वा^०- -वाम् वीध
 २, २, ५९.
 स्त्री-प्रतिकृति- -नी वीथ २, ५, ५४;
 ३, ११, २.
 स्त्री-प्रत्यय- -वानाम् पावा ३, ३,
 २०.
 स्त्री-प्रथम^०- -मा: गीथि १, २, २७;
 ४, १४.
 स्त्री-प्रथम^०- -ईशु^० अण ६९, ५, १.
 स्त्री-प्रथम^०- -वम् भावण २, १६, ८;
 दिध २, ५, ८.
 स्त्री-प्रधाना(कु-आ)लम्भन- -ने
 गीध २, २१.
 स्त्री-वलि- -लिम् पाण १, १९, ४.
 स्त्री-बहुवचन- -भानि अवा २, २,
 १८.
 स्त्री-बाल-जव-रोगिन्- -गिण: अण
 ५, ४, ५.
 स्त्री-बाल-पुरुष-वातिन्- -तिन:
 दिध ५, ११.
 स्त्री-बाल-भराक-भाषिका-लाया (वा-
 आ)सन भायन-याना (न-अ)अणु-
 विभुम्- -पुशः शृषण ८४:
 १६^०.

- a) पाथे, वैश १ वि २, ११, १ वि. ६.।
 d) मत्सरं पाथे.। e) = स्त्री-जन्ती.। उक्त.। f) 'पुं' इति शोधः। g) 'वन्वदयाना' इति
 पाठः। नति. शोधः।

स्त्री बाल भद्रक-मक्षिका माज्जरि
 मृषिका-जाया(वा-आ)सन चाय-
 न याना(न-अ)मृषुविद्रुप- मृष
 सुधप ८६ १६
 स्त्री-वाल घृह- डा धष २५८,
 -दानाम् वीध २ १,६५.
 स्त्रीवालघृह प्रलाप- वा अथ
 ७२ १,८
 स्त्री बाल(ल-अ)मृषुपति- स्त्री
 विघ १६ १८
 स्त्री बाल(ल अ)स्वतन्त्र मत्तो(त-
 त)मत्त भीर तादित-कृत-
 कम् विघ ७ १०
 स्त्री ब्रह्मचारिन्- रिणौ पाठ ३,
 १४,९
 स्त्री ब्राह्मण विक्ला(ल अ)समर्थ
 रोणिन्- गिणाम् विघ ९ २३
 स्त्री भग- ग या ३,१६
 स्त्री मद्- मताम् गीध ७,११
 स्त्री मुख- नेषु वाप ३,४६
 स्त्री पाठय शिष्य- व्याणाम् आशिष्ट
 ३,७४ ४, वीपि २,३,९
 स्त्री योनि- ति अ २ १९
 स्त्री रक्षा- क्षा विघ १६ १२
 स्त्री रगत गो-स्त्रैव्य- नम् सुधा
 ८६ १
 स्त्री-रुप-वारि(र>)गी- ली विघ
 १ २१
 स्त्री लिङ्ग- अ धातिष्ट २४,१२
 ६ -आ वशि २ ७, -हानि
 माथी १ ७,४ ३, -ह्वेन वृद ६,
 ७६ -ह्रै कौसू ६० १५
 स्त्रीलिङ्ग वचन- नम् पावा ५
 ४ २७
 स्त्री-वचन- न पावा १ ४ ३

स्त्री वत् वैशु १, २१ ७, अप ४८,
 १३४४४, पावा ५ १,११८
 स्त्री र(त>)सा^०- रसापाम्
 शीश्री २,८,७
 स्त्री वध- न्य वीप १,१०,२३
 स्त्रीवध चाण्डालसंयोग- गेषु
 सुध ४६
 स्त्री वासस्- रसा प्रापथ २,१,१०,
 द्विघ २,१,१९
 स्त्री विषय- ये पावा ४ १,३
 स्त्री-विषय-त्या(त्व-अ)र्थे- र्थम्
 पावा १,४ ३^०
 १ स्त्री व्यञ्जन- गानि आपथी ८,
 ६,१, माथी ८६, ५ द्विधौ ५
 ३,३०
 २ स्त्री-व्यञ्जन-> णी^०- णी वीथी
 < १० ६
 स्त्री व्याधित- लौ कौसू ७,१७
 स्त्री शब्द- अदस्य पावा १, ३,
 ३३
 स्त्री छुदि- द्वि वैध ३,३,१
 स्त्री शूद्र- दम् माथी ४,७,१, काय
 ५ ३ अप ४० ६, २, वाध ३
 ३४ -त्राभ्याम् वैष्ट २ ११
 १०, ३ ९ ५, -त्रै वीप ३,
 ८,३०, ४ ५ ४, -त्रौ वीप १
 ५ १८
 स्त्रीशूद्र जीमिन्- विन शप
 ४३४
 स्त्रीशूद्र दम्भर- नम् विघ २३
 १३
 स्त्रीशूद्र सभापण-वर्जिन्- वि
 वाप ५४,५
 स्त्री शूद्र पतित- तानाम् विघ ४६
 २५

स्त्री शूद्र-नभस रजस्यल पा^१-
 -रामि^० वीष्ट ३ ३,१० -लै^०
 काय ४,१५
 स्त्री शूद्र-शव कृष्णताडुनि शवद्-
 सुनाम् पाठ २,८, ३
 स्त्री-य(<स)साद^०- दम् भाशि
 ६११
 ण् स्त्री पू(<हू)^१->क्षैर्ष^०-
 यम्^० वीव २,८८, ४ ८३
 ण् स्त्री पू(<हू)र्ष^०- यम्^० कौष्ट
 १,१२,६^{१०}, शीष्ट १ १९ ९
 स्त्री महीत- तै अथ १९^३, ४, ३
 स्त्री सनातानाधिकरण- णाम् पावा
 ४,१,३
 स्त्री हत- न्त आपथी २२, ६, ८,
 द्विधौ १७,२,५३
 स्त्री हन्तु- -नृत् विघ ५४, ३२
 स्त्री-हुत- -तम् कौसू ७३ १८^१
 स्त्री(स्त्री-अ)भूत मधु मास ग ध-
 माहय-वर्जिन्- णी^० वैष्ट १,
 १२ ६९
 स्त्री(स्त्री-अ)पराध- पाठ मीसू १,
 २,१३^१
 स्त्री(स्त्री अ)भिधान- नम् पावा
 ४, १, १३
 स्त्री(स्त्री-अ)भिदास- सग् माथी
 १२,८ ६
 स्त्री(स्त्री अ)र्थे- र्थस्य पावा ४,
 १ ३
 स्त्री(स्त्री अ)भिधान- ने पावा
 ४ १,३.
 स्त्री(स्त्री आ)रव^०- पावाग ३, २,
 ५^०, -स्वौ पा १,४,३
 स्त्री(स्त्री आ)दि-स्वत्वास- सग्
 काय ३०, ३, माष्ट १, १५, १६,

०) वस वा पस वा । १) वर । २) व्याप्यं शत पाठ । ३) दस । रभस = बभूव वृत्- ।
 ४) परस्पर पाठि । ५) वैष १ ३ । ६) पाठ वैष १ वी ६ ११, ३ टि ३ । ७) 'पु' इति पाठ^१ मनि
 घोष (तु शार) । ८) कपराधाव् इति जीत । ९) विघ । उत (तु पाठ) । १०) तु पाठम् ।

वायु १६, १.

स्त्रैण-^१, छैयूय-^२ लो-^३ द.

स्थ-^४ नयः उम् ५, ४.

स्थ-^५ √स्था द.

√स्थग्^६ पाषा. भा. पर. त्वरणे.

स्थगर^७- पाग ४, ४, ५३; -रम् गोय

४, २, २७; कप्र २, ८, ५६.

स्थगर^८- रम् आपश्री १४,

१५, २१; द्वित्री १०, ७, २४; १;

आग्नि १, ७, १: १.

स्थगतिक- पा ४, ४, ५३.

स्थगते(र-उ)तीर- रम् आपश

१८, ११.

स्थगल^९- पाग २, ४, ६१; ४, ४,

५३.

स्थगल- पा २, ४, ६३; पाग

४, ४, ५३.

स्थगतिक- पा ४, ४, ५३.

स्थगतिक- पा ४, ४, ५३.

स्थगिडल^{१०}- पाठभो २, ३, १०८;

पाग ४, ३, ७६; -लः वीथी ५,

११: २५; -लम् आपश्री २२,

१८, १; वीथी १, २: ५; १०×४;

द्वित्री; -लस्य आग्नि १, ७, १:

७; -लान् पा ४, २, १५;

-लानि वीथ ३, १, ३; -ले

श्री ४, ७, ६; काश्री २२, ११,

१; वीथी; -लेयु आग्नि २, ४,

६: ८.

स्थगिडल- पा ४, २, १५; ३,

७६.

स्थगिडल-प्रमाण^{११}- ग्गा वैशु १,

८: ५.

स्थगिडल-शाधिन्-^{१२} विनः विप

१९, १६; -वी आग्नि २, ७,

१०: १०; पाग १०, ११.

स्थगिडे-नाय-^{१३} नयः शंष ३७९;

४३३; ४४३.

स्थगिडलो(ल-उ)पर^{१४}-^{१५} रे आग्नि

२, ३, ५: ५.

स्थपति^{१६}- पाठवृ ४, ५९; -तिः वाथी

२२, ५, २८; ११, १०; वीथी;

-भिन्वः काशु ७, ६; -त्रिम्

वीथी १८, २४: ३; २५: ५;

-लौ वीथी १८, २: १५.

स्थपण-^{१७} नयम् निम् ७, १:

७; -वाय आपश्री २२, ७, ६;

द्वित्री १७, ३, ५.

स्थपति-उत्स^{१८}(१) काशु ७, २९.

स्थपति-वृ मीम् ६, ८, १२.

स्थपति-संय-^{१९} नयः शीथी १४, २२,

२; वीथी १८, ३: १२; १३; निम्

७, १: ४; -वेन वीथी १८, ३:

१; ११.

स्वपती(नि-द)दि-^{२०} दिः मीम् ६,

८, २२.

स्थपुट^{२१}(> पठित- पा.) पाठभो २,

२, १०६; पाग ५, ३, ३६.

√स्थल् पाषा. भा. पर. स्थाने.

१स्थल-^{२२} १स्थाल- पा ३, १, १४०.

२स्थल, ला^{२३}- लम् वीथी १४, १८:

२७; सु ९, ४, वृदे ६, ८०; -लान्

वीथी ३, १०: २४; -लाः वय

९, ४, २; -लावृ द्राथी १, १, २१;

लाथी १, १, १९; माग्नि १६, १;

वाधि; पाषा ५, १, ७७; -लानि

वीथी ६, २३: ६; १५, १:

३; -ले काथी २४, ६, २४;

आपश्री १०, २०, ९; वीथी.

स्थली-^{२४} पा ४, १, ४२; -ली

लाथी १०, १९, १.

स्थालिक^{२५}-

स्थल-उ-^{२६} नयम् विप ५, १२१.

स्थल-नर-^{२७} रम् द्राथी १, १, १८;

लाथी १, १, १०.

स्थल-नय-^{२८} पा^{२९}, पाग ५, ३, १००;

पाषा ५, १, ७७.

स्थालपथ-^{३०} पथिक-पाषा ५, १,

७७.

स्थल-सोहन-^{३१} जे काय २७७: १.

स्थल-वृ वैशु ५, १५: १३.

स्थल-सिन्धु^{३२}- (> स्थालसंघ-
पा.) पाग ४, २, १३३.

स्थला(ल-ज)न्तर-^{३३} रम् द्वित्री १०,

१, २३.

स्थला(ल-ज)र्ध-^{३४} नयम् द्विपि

१३: ४.

स्थलिकाण्ड-^{३५} ग्गाभाय वायु १७,

१२.

स्थवस्, स्वस्-यव-^{३६} √स्थ(वधा.) द.

स्थवि- पाठ ४, ५६.

स्थवि-नाव-^{३७} नयम् आपश्री ४, ११,

९; २४, ६; ७; वीथी.

स्थवि(वृ>)त्री-^{३८} न्त्रि आपभं २,

११, १९.

स्थविमन्-^{३९} √स्थ(वधा.) द.

स्थविर^{४०}- पाठ १, ५३; पाग ५, १,

१२; १३०; ६, ३, १९८;

-रः द्राथी ६, १, २२; १५,

४, २१; लाथी; -नृरम् आपभं

२, २, ११; वीथ १, ३, २; शय;

-रस्य आपश्री १६, २४, ४; १७,

a) √स्थग् इत्यपि BPG. । = √स्थग् । b) = सुपनिध-इत्यन् । c) तु. पागम. । d) वैप २, ३९.

द. । e) तु. पागम. । f) स्थाल- इति भाष्या. पाणि । g) वत. । h) वय. = वत्तरनाय- ।

i) वैप १ द. । j) = पात्र- । k) तु १९६९ दृष्ट. । l) <स्थलपथ-क- । m) क्षया. माय १, २२: १५

अथो इति, द्वि २, ३, २ स्वपथा इति, आग्नि २, १, ३: १ स्वस्य इति पाठे. ।

४,३, वाश्री, -रा. आश्री १०,
७,३, काश्री २२, ४, ७, -रात्
जाश्री ८, ६, ४, -रात् शाश्री
१६, २, ५, आपश्री १०, १, १,
माश्री, -रे वाष ५,३, वीष २,
२,४६

स्थानि- पा ५,१,१३०.

स्वयिर्व- पा ५,१,१२४.

स्वयिर-गर- -रा- वाधुश्री ४, ३० :

१०, -रे वा ४,१,१६५

स्वयि-वाहा (ल आ) तु-भारिक-

स्त्री-वक्रोवत्- वगम् वाष

१३,५८

स्वयिर-व्(त्>)ती- वा ६, ३,

११८.

स्वयिष्ठ- प्रम् √स्व (वषा) द

√स्था^१ पाथा भ्वा. पर गतिनिवृत्तौ,

विष्ठते वीश्री १२, ७ : २८,

विष्ठति शाश्री ३, १६, १७, ५,

१५, ७xx, काश्री, द्विष्ट १, २७

२५^१, अश १, १८, १^१, विष्ठत्.

वीश्री ६, २४ : १४, १०, १.

१७xx, शाष्ट २, १, २७,

विष्ठन्ते शाश्री १०, १६, ८^१,
विष्ठन्ति आश्री ६, ५, २४,

काश्री १६, २, ४, आपश्री,

या ३, ४^१, प्रतिष्ठति वीश्री

९, १६ ६, आश्रिष्ट ३, ८, २ :

३५^१, वीशि १, १५ ४३^१ तिष्ठ

विष ९९, २३, प्रतिष्ठति आपश्री

२, १५, १, २४, ११, ३, वीश्री

३, २७ : ७, भाश्री, तिष्ठामहे

शाश्री १५, २६, १५, तिष्ठत्

आपम २, १५, ३^१, तिष्ठा-

या ८, १८^१, प्रतिष्ठत् काश्री

२५, ५, २८, आपश्री ५, १४,

५xx, वीश्री, माश्री १, ८, ६,

२२^१, पाष्ट ३, ४, ७^१,

अश १९, ४६^१, तिष्ठत्-

तिष्ठत् पाष्ट ३, १५, २३,

तिष्ठस्व वृदे ६, १२३, प्रतिष्ठ,

> छा आश्री ६, ११, ११;

शाश्री ८, ८, १, आपश्री

१४, २७, ७, ३३, २, १६, २,

१०^१xx; वीश्री, द्विष्टी ११,

१, २२^१, वीष्ट ३, २,

६^१xx, शाष्ट ३, ३, १^१,

प्रतिष्ठन्तम् शाश्री १५, २६, १६,

अतिष्ठत् आपश्री १६, २९, १५,

वाधुश्री ३, १९ : २२, वैश्री,

अतिष्ठ-त शाश्री १०, १६, २, ८^१,

प्रतिष्ठन् या २, १७, २२,

प्रतिष्ठतिः आपश्री ५, २, ४, वीश्री

६८, २५, २६; तिष्ठत् वाश्री

३, ४, ५, १९, अष ४०, ६,

११xx, वाष ११, २६, तिष्ठत्

काश्री २५, ११, १५, आपश्री

१२, ११, ८^१, १३, १, ४, वीश्री,

तिष्ठताम् वीश्री २२, ८ : ३, वैश्री

१८, १४ ३६, तिष्ठेयुः वीश्री

१७, ११ : १३

प्रतिष्ठे आपश्री ८, १७, ८, १७,

२१, ८, वीश्री, तस्थौ वृदे

६, १२१; ७, ९७, तस्थौ

शाश्री १५, २७, १५, वस्थुः

पाष्ट २, १५, ४, या ४, २७^१,

अश १, १, १२^१, स्थास्यति

निस्त् ४, ८ - २१, स्थासन्ति

अष २७, ७, ६, स्थासति या

८, १८, स्थेवात् वैष १, २, ३,

प्रतिस्थात् आश्री ३, १२, २६,

शाश्री १५, २५, १, आपश्री,

प्रस्थात् आपश्री ८, १२, ४,

माश्री ८, १४, ५, माश्री १, १,

१, ४५, वाश्री १, १, २६, ३,

२, २३; प्रस्थु आपश्री ६,

२४, ८, भाश्री ६, ५, १, माश्री,

स्था. द्विष्टी ५, ३, ४५^१

स्थेयते अष ६७, २, १, स्थायताम्

वाष १०३.

स्थापयति काश्री ४, ९, १२,

८, ३, १९xx, माश्री, स्थापयतः

वीश्री १४, ५ ८, ६ : १०, द्विष्टी

७, ५, १२, स्थापयन्ति काश्री

७, ९, ३०, वाधुश्री ४, २८ :

१०, वाश्री, स्थापयेत् शाश्री

१७, १०, १७, वैश्री ८, ६ -

११, आश्रिष्ट, स्थापयेयु वीश्री

२६, २४ : १२

प्रतिष्ठिपम् अश ३, १, ७,

४, १

प्रतिस्थायत्- स्थिवांस आपश्री ७,

२८, २, द्विष्टी, -स्थिवांसम्

द) या १, १८ पा १, २, १७, ४, २४, २, ४, ७७, ३, २, ४, ७७, ६, ४, ६६, ९७, ७, ४, ५, ४०, ८, १, ६४ पाथा २, ४, ३, ३, १, ८६ पराच्छ द । ब) पामे. वैष १ तिष्ठति शी ३, १२, १ ति द । c) वृ १२१ अतिष्ठ इति नेष्टम् । d) पामे वैष १ तिष्ठन्ति वै १२, ४, १५ ति. द । e) पामे. वैष १ तिष्ठत् अ १०, १८, १२ ति द । f) सषा आश्रिष्ट २, ८, १६ प्रम् तिष्ठन्ती इति पामे (दृ ५ ११८७ ७) । g) सषा. तै ३, ५, ५, ३ तिष्ठ इति पामे । h) पामे वैष १ तिष्ठत् शी १२, ४६, २ ति द । i) पामे वैष १, २३४७ इ द । j) सष्ट् अष्ट इति वाट ! वनि. वीष (दृ शाष्ट) । k) पामे. वैष २, ३४ मयप्यम् ऐमा ७, १७ ति. द । l) पामे वैष १, ७१६ lc द ।

आपथी १८, १५, २, द्विथी १२, ६, ३९, आपथं, -रथुप आपथी १७, ८, ४^१, १९, २२, १६, घोषी, माथी ५, २, ३, १२^३, या १२, १६७.
 अरथुपी- वी आपथ २, १९, २१.
 तिष्ठन्- ष्ट् काली २, ३, १२, ७, ९, ४, -ष्टत् शोथी १५, १६, ११, १७, १, ३, वैथी, -ष्टत्ता वीथी १४, २ १५, २५, १८ ९, वैथी, -ष्टत्ताम् नाथि २, २, १७, -ष्टत्ति काथी १७, ३, २०, आपथी ७, १४, ६, वैथी ५ १०, वैथ, -ष्टत्ते वीथी ७, १२: २२, ३९, ५१×४, पाथ २, १, ४, -ष्टत्सु आथी ४, ८, २३, -ष्टत्प्रवाम् आपथी १२, २१, १९, वीथी २२, ८, ४, -ष्टत् आथी १, ४, १३, २, ५, १७×४, शोथी २, ७, १३×४, ११२^३, २२, १, ४, -ष्टत्त आथी ६, १३, ३, शोथी ६, १२, २१, आपथी, -ष्टत्तम् शोथी १६, ३, २०, आपथी १८, १५, १०, वीथी, -ष्टत्तो आपथी ८, ६, २३, काठथी ३४, माथी
 तिष्ठन्ती- न्ती आपथी १, ७, १०, ११२, ५, १२, १४, माथी, आपथ १ १२, ४^१,

आथ २, ८, १६^१, वीथ ३, २, ६^१, पाथ १, ६, २^१, -न्ती काथी १०, २, ११^३, -न्तीम् आपथी २, ५, २, माथी, -न्तीषु वैथी १६, ६ ६, संप १४५, -न्त्य वीथी १६, २३ ९, -न्त्याम् आपथी २२, १६, ४, वीथी १६, २६ ७, ८, द्विथी तिष्ठन्-स्यैप- नेषु आथी २, १७, १२
 तिष्ठद्-गु- पावा २ १, १७
 तिष्ठद् घो (< हो) म- मा आथी १, १२, ६
 रतिष्ठद् घो (< हो म >) मा^३- मा पाथी १, २, ६.
 तिष्ठमान- न् निम् ४, ७ ३, ५, ७: १२, ८ २, -ना द्विथी १६ ५, ३^१.
 रथ- पावा ३, ३, ५८, रथे पा ६, ३, २०
 रथेमान्- न्ने वाघूथी ३, ६९, ३६
 रथेयस्- रथेष्ठ- पा ६, ४, १५७
 रथासु^१- पाठ ३, ३७, पाग २, ४, ३१, ४ २, ८६, -रथे वैथ ५, २ २९^१, -थु वाघूथी ३, ३३ १ २, ६९ ११, अथ ४३ ५ १८^१, विथ २०, ५२, या १, १८^१, -थुम् आपथी ७, १७ ७, वीथी, १^१ वीथ ३ ३ २४,

अथ १, १, १, शुभ १, ६, -नो वा १, १६, -नो आथी ६, १, २२, १४, ३, १२, आपथी स्थानु-भ्र- पा ४, २, ८६.
 स्थानु-भ्र-भ्र-वर्ग-वर्गीक- -कानाम् काथी ५, १०, १८
 स्यातन्- भ्र-भ्र- ७०, ११, २
 स्यातुम् अथ ३३, २, १
 र्त्सुवा^१- -त्त अथ १, १०१, -त्त शोथी ८, १७, १, वीथी ८, १६, १०, २६, २१ १४, -त्त वीथ ३, ११, ३
 स्यात्- रे वा १४, १९
 स्यातोश् () पा ३, ४, १६
 स्थान- पाग २, ४, ३९^३, -न्म् आथी १, १, २४, ६, ६, १८, शोथी १, १, १६×४, काथी, आपथी २ १३, ११^३, वीथी १, १३ १९^१, माथी, पा ८, ३, ८१, -न्मो वा ६, १७, -नात् आथी २ १७, ४, काथी ३, १, ६, आपथी १२, १६, ८^१, वीथी, -नात्मा वीथी २७, २ ८, भाति ८, १, -नामि विम् ६, ३, १, १०, ८ ९, अथ -ने आथी १, ३, १०×४, ९, २, २२^१, शोथी, पा १, १, ५०, ७, ३, ४६, पाग १, १, ३७^३, पाथ १, १, ५०^१×४, -नेन द्विथी २१, २, २६, निम् १, ६ ७×४, मीम् ८, ४, २५, -नेन्व वैथ १, ११,

a) वा वी (= वीथ् इड म २ ३, ७) इति सहित पाठ ।
 ब) पामे वैप १ तिष्ठन् शी २०, १३३, ४ टि द ।
 c) पामे वैप १, ८८१ h द ।
 d) पृ ११८७ ७
 e) न्तीम् इति पाठ १ यमि शोष (इ आथ) ।
 f) तिष्ठती इति पाठ १ यमि शोष (तु आथ) ।
 g) वीथ् तिष्ठती इति ।
 h) बय ।
 i) स्या आपथी २२, १२, ९ निपेयमाणा इति पामे ।
 j) वैप १ द ।
 k) नाप, व्यप (यद) ।
 l) वैप १ निर्दिष्टानां समावेश द ।
 m) तु पागम ।
 n) पामे वैप १ स्थानम् मा २, ८ टि द ।
 o) अथ आपथी २२, ९, १ म् लोके इति पामे ।
 p) तु पागम । युकार्थे ऋच ।

४, पा ३, ८; -नेषु आश्रौ १९,
 १६, ४; बौधो २९, ३ : ८;
 द्विभौ; -नैः वा ९, २९.
 स्थान- -नौ पा १, ४, ४.
 स्थान-क^० -> क-समाप्ति-
 -सिम् वा ५ : ३.
 स्थान-करण-प्रयत्न- -जाः आशि
 ८, २; -ज्ञानाम् आशि ७, २;
 -वेभ्यः आशि १, ४.
 स्थान-करण-विमोक्ष- -क्षः शुभा
 १, १०.
 स्थान-करणा(ण-ञ)पक्ष- -ये
 ऋषा १४, २.
 स्थान-कर्म^० - -संगः पा १४,
 १३.
 स्थान-कर्म (ः) निम् ३, ९ : ७.
 स्थान-प्रय- -ये विष २१, ९.
 स्थान-स्थ- -न्यात् पावा १,
 ४, ३.
 स्थान-धर्म- -र्मः गीम् ९, १,
 ३३.
 स्थान-पति- (>पत- पा.)
 पाग ४, १, ८४.
 स्थान-पर-प्रत्यय(य-ञ)पवा-
 द- -दः पावा १, १, ४७.
 स्थान-पाल- -लान् विष १, १६.
 स्थान-प्रतिषेध- -धे पावा १,
 ४, ३.
 स्थानप्रतिषेध-प्रत्यय- -कः
 पावा १, ४, ३.
 स्थान-प्रक्षेपो(प-उ)पदेश- -क्षे
 ऋषा १, ५५.
 स्थान-प्रंता- -नाम् ऋष २६,
 १, १.
 स्थान-गण- -गणे ऋष ७०,
 २१, ७.
 स्थान-मौन-वीरामन- -नानाम्

वीष २, १०, ५८.
 स्थान-मौन-वीरामन सवनो-
 पस्पर्शन-चतुर्धपष्टाष्टमकालप्रत-
 युक्त- -कस्य बौध २, १०,
 ५५, ६०.
 स्थान-लोक- -कयोः श्रुदे ३, ६८.
 स्थान-यत् निम् ६, २ : ५.
 स्थान-वत् (>)ती- -ती निम्
 ८, २ : १०.
 स्थान-विधि- -धौ शौच १, ४१.
 स्थान-विभाग- -नेन वृदे १,
 ७०.
 स्थान-विवर्जित^० - -तम् वाशि
 १, २९; नाशि १, ३, ११.
 स्थान-वृद्धि-क्षया (य-था)
 ध्रय- -यः शेष २४६.
 स्थान-व्यूह- -देषु मा ७, ११.
 स्थान-शब्द-प्रयोग- -न्यात् पावा
 १, १, ५६.
 स्थान-पटी- -ष्टी पावा ६, ४, १.
 स्थान-संयुक्त- -क्ताः निम् २,
 १ : २६.
 स्थान-संक्रमण- -जे आश्रौ २,
 १७, ४.
 स्थान-संमित- -तम् निम् ८,
 १३ : ४०; ९, ३ : ३९; -ते निम्
 ९, ५ : २५.
 स्थान-स्थ- -स्थः निम् १०, ७ :
 २५; -स्थाः निम् ६, ५ : १७;
 -स्थानि निम् ८, ५ : २३.
 स्थाना (न-आ) कृति-प्रमाण^०-
 -गम् ऋष ३, १, १३.
 स्थाना(न-अ)प्युत्^०- -च्युते ऋष
 १, ४१, १; ऋषा ११, १.
 स्थाना(न-आ)दि- -दिषु पावा
 ५, २, २९; -दीनाम् संप २४६.
 स्थाना(न-अ)प्त- -न्तात् पा ५,

४, १०.
 स्थाना (न-अ) मत्^० वा ४, ३,
 ३५.
 स्थाना(न-अ)न्तर- -राणि ऋष
 ५, ५, ५; -रेषु आशि १, १.
 स्थाना(न-अ)न्वित- -तानि निम्
 ४, १२ : १४, १८.
 स्थाना(न-आ)पति- -त्तेः वाश्रौ
 ४, ३, १९; २३, २, १५; २६,
 ४, ८.
 स्थाना(न-आ)पक्ष- -तम् निम्
 ८, ४ : २.
 स्थाना(न-अ)भिघात- -त्रात्
 आशि ८, १.
 स्थानाभिघात-ज- -जे आशि
 ८, १३.
 स्थाना(न-आ)सन- -तम् वीरु
 १४१, ४४; -नयोः आश्रौ १,
 १२, ५; -नाभ्याम् आपथ १,
 २५, ११; बौध २, १, ४९; गौष.
 स्थानासन-कल- -कम् बौध
 २, ४, १७.
 स्थानासन-शील- -लाः वाप
 २४, ५.
 स्थानासनिक- -कः आपथ
 २, १८, ५; द्विष २, ५, ५७.
 स्थाना (न-आ) सन-चक्रमाण-
 क्ति- -नेषु आपथ २, ५, ८;
 द्विष २, १, ८९.
 स्थानिद- -निनः आपथो २१,
 १, १६, १८; द्विषो १६, १, १३;
 गा २, ३, १४; पावा १, १, ५०;
 -निनि पा १, ४, १०५; -निनी
 निम् १०, ११ : ४; -नी वाप्रवा
 १, ३.
 स्थानिनी- -नीम् वाश्रौ
 ३, १३, १९.

स्थानि निर्देश- -श पावा
 ६, १, ७८, ४, १२१
 स्थानि-विवृत्ति- ति पावा
 १, १, ५०
 स्थानि-वत् पा १, १, ५६,
 ५७, ५८, ५९.
 स्थानिवत् स्व- व्वात्
 पावा १, १, ४, ५६, ४, १८, ३, १,
 ४४, ८३, ८, ४, १५
 स्थानिवत् प्रतिषेध-
 -वात् पावा ६, ४, १४९, ७, १,
 ९०, ८, २, ३८.
 स्थानिवत्-प्रसङ्ग- ङ
 पावा ६, ३, ३३
 स्थानिवद् अनुदेश-
 -वात् पावा १, १, ५९
 स्थानिवद् भाव- न्यत्
 पावा १, १, ५९, -वात् पावा ७,
 ३, ५४, ४, २
 स्थानिवद्भावन-प्रतिषे-
 ध- -घ पावा १, १, ५६
 स्थानिवद्भावन-प्रसङ्ग-
 -ङ पावा १, १, ५
 स्थानिवद्-रचन- नम्
 पावा १, १, ५७, ५९, ६, १, ८५,
 -वात् पावा १, १, ५६
 स्थानिवद्भावन(न-
 आ)नर्धय- -नदम् पावा ६, १,
 ८५
 स्थानि सज्ञा(आ-अ)नुदेश-
 -वात् पावा १, १, ६२
 स्थान्या (नि आ) देस->
 -न-स्व- -न्यन् पावा १, १, ५६
 स्थान्यादेश प्रथम-
 -वात् पावा १, १, ५६
 स्थान्यादेश(श-श)भाव-

-वात् पावा ६, १, १८२.
 स्थाने-यो(ग>)गा- -ना शुवा
 १, १३६, पा १, १, ४९
 स्थानेयोग-न- -वात् पावा
 १, १, ३
 स्थानेयोग-वचन- -न्यम् पावा
 १, १, ४९
 स्थानै(न ए)कत्व- -न्यम् वा
 ७, ५
 स्थानधिया आपथी ११, ७, ३,
 काशीसं
 स्थानित,ता- -नत् कौसु ६ १७,
 -ता विष १, ४५, -ता वृदे २,
 १०९, ११०
 स्थान्य- -प्यम् आज्यो ८, ८
 स्थान्यमा(न>)वा- वा वैताश्री
 १६, २
 स्थान्य- वाड ४, १४५, -पुम°
 माथी १, २, १, १४, वाथी १, २,
 ४, ९
 स्थान्यिन्- पाठहु ४, ४९, पाग ३
 १, १३४, -वि आथी ८, ५,
 १९, -वीनि आथी ८, ५, १६
 स्थान्युक्त- वा ३, २, १५४
 स्थान्यव,ता- वा ३, २, १७५, रत्
 काठश्री ३६, सु १६, १, अय,
 -रय वा १२, १६, -रा वाथी
 १०, ८, २१, १५, ४, ३३५,
 आपथी, -राणाम् आथी १८,
 १३, १२, वीथी ६, ३२५,
 वाथी, -राणि सु १६, १, अय
 २, २, १०, अय ४ १, ६५,
 -राय विष ६४, १७, -राय
 वीथ ३, १३, १६, राय ४, १४,
 ४, -राणु आपथी १०, ५, १५,
 माथी १, ७, ४, ३७, २, १, १,

३०, वैथी, -रे वा ७०, १९,
 ४, -रेणु विष २३, ४६
 स्वावर जद्गम- -नम् नाशि
 १, ७, ८, -मानि राणु ४, १, ३,
 अय ४३, २ ५२१
 स्वावर-योनि- -नय. विष
 ४४, २
 स्वावरो(र-उ)दक- -के काणु
 १८३
 स्थान्य- -स्वा आथी ४, २, ५,
 वा ५, ३४
 स्थान्यु- वा, पावा ३, २, १३९, -स्व
 काथी १, ११, ११, पुथी ३,
 २९ ५, ८, सु १७, ३१
 स्थान्यु-जद्गम- मे वृदे ४, ३७.
 स्थान्यव- -न्यत् भाणु २, २९ : २
 स्थान्यव,ता- पा ३, ४, ७२, -व
 वाथुथी ३, १८ ७, वैथी २, ६
 १, वैथी १ ७४, पाणु, -न्यम्
 काथी १४, ३, १२, ४, ११, ५,
 वाथुथी, अथा १०, ११, १३,
 ११, १२, -वा अय ३०, ३,
 २, वाथ २०, २१, विष, -वा
 वैथी १ १९८, आथिण २, ४,
 १२ १०, अय, नाति २, ७, ३१,
 -वा ३११ निम् ९ ९ २६,
 -वाताम् राणु १८१, -ताम्
 वैथी १ ११०, -ताणाम् काथी
 १५, ६, ३२, -वाणु विष ५०,
 १८, -वा काथी ४, ८, २३, वीथ,
 -वा अय ५, ३, २, राणु १२४,
 -वा नाति १, १९, २५, नाति
 ३६, नाति १ ६, ३
 स्थान्यव निघन्- -नम् निम् ७,
 ४ ४७
 स्थान्यव योग-> पितृ- -वीनि

a) वम । b) वै १६ । c) वाथे वै १ स्थान्यम् सा २, ८ टि द । d) प्यु इति पाठ ।
 वनि शोपा । e) = (स्ति-रहित) पर । f) = अणुत्तरम् । g) प्यु इति नात् । h) १ १५ + १६ ।

अप १, ५, ७.
स्थित-संधि- -विः नाशि १,
७, १६.
स्थित-सूनु^१- -नुः कौन् ८५,
२५.
स्थितो(त-उ)पस्थित^२- -तम्
ऋषा १०, १४; ११, ३०; ६१;
१५, १८; शुभा १, १४७; छ,
१९०.
स्थिति- पा ३, १, ९५; -तपः
माष्ट २, २२; २०; -तिः शश्री
१७, १०, २; वीथी १६, ६;
८×४; वाधुथी; श्रथा ११, २८०;
-तिम् वैष्ट ५, १; २४; अ
१, ९, ३; ७०^३, ११, २६; विध
२०, ३२; वेगवो १४; -तौ विध
१९, १५; ऋषा ११, ६१०.
स्थिति-स्थितोपस्थित- -ववोः
ऋषा ११, ६१.
स्थित्यु (ति-उ) व्यति-प्रलय-
न्याय- -वेन या १४, ३३.
स्थित्वा शश्री ३, १४, १४; वधथी.
स्थिर, रा^१- पाठ १, ५३; पाग
५, १, १२३; -रः काथी १६, ३,
८; आपथी; आपनं २, २, २०;
आमिष्ट १, १, २; २१^०; -रिम्
आथी ३, ५, १२; ऋषा ५, १८;
-रि काथी १७, १२, १५;
आपथी १४, ३३, ६; माथी;
आपनं १, ५, १^०; आष्ट १,
७, ७^०; कौष्ट १, ८, २०^०;
-राष्ट कौष्ट ४, १^०; -रे पा
३, ३, १०; -रिः आपथी १४,
१६, १; द्विथी; -रिः आष्ट २,

६, ७; माष्ट १, १०, १६^०; वृदे
छ, ११६.
स्थैर्य- पा ५, १, १२३.
√स्थिर^१.
पुंस्थिर-घन्वन्^२- -न्वेन शश्री
छ, २०, ९; आष्ट छ, ८, २३;
कौष्ट ३, ८, ३; या १०, ६.
पुंस्थिर-धीत^३- -तम् या १, ९;
२०^३छ.
स्थिरा(र-आ)प्रात^४- -तम् गोष्ट
छ, ७, ८.
स्थि(र>)रा-व (त>)नी-
-ती^५ माष्ट २, ११, १२^०.
स्थिरो(र-उ)पथित-सर्वा(वे-अ)
ऋषा- -ऋः अष्ट ६८, १, २२.
स्थेय, या- -यम् भाथी ६, १, ४;
-याः कौष्ट १, ८, १९; शश्री १,
१३, ९; -याभिः कौष्ट १, ८,
२९; शश्री १, १४, ८.

स्थारार-, -रिक्- स्थपर- द.
स्थाराल-, -पथिक- स्थगल- द.
स्थारजिवावती^१ शश्री ३, ३, १^०.
स्थारण- प्रवृ. √स्था द.
स्थारण्डिल- स्थारिडल- द.
स्थारतव्य- प्रवृ. √स्था द.
स्थारपत्य- स्वपति- द.
स्थारपयित्वा-, -पित-प्रवृ. √स्था द.
स्थाराल- √स्थल द.
स्थाराल^१- पाठ १, ११६; -लम् माथी
६, २, ६, १५; -ले वीथी ९, १;
१०; -लेन वीथी ९, २; ३९.
स्थाली^२- पावन ५६; -ली
पुंआपथी छ, ७, २; ११, ३; वीथी
२, १३; २४; छ, १; ८×४;

माथी; काष्ट छ २; १६^०; पाठ
१, ४, १; -लीः वीथी ८, १९;
६; १५, १४; १४×४; वेथी;
-लीभिः काथी १९, २, २३;
वीथी १५, १९; ११×४; -लीम्
आथी २, ३, १५; शश्री छ, ३, ३;
५; काथी; काष्ट छ २; १०; ११;
-लीषु आपथी १३, २४, ३;
वीथी २२, ३; २७; २६, ३९;
८; -ल्या काथी १०, ४, १०;
आपथी १२, १५, ३; ११; १६,
१; माथी; -व्याः आपथी १, ११;
१०; २, ३, १०; काथी; -ल्याम्
काथी ३, ७, ११; छ, १४, १×४;
आपथी; -व्यौ आपथी १२, १,
१५; वीथी १, ३; ८^०.
स्थाली-मह- -हाष्ट माथी ९,
६, २४.

स्थाली-याक^३- कि ७२; -कः
शश्री १२, २३, १^०; आष्ट १,
१०, १; कौष्ट; -कम् आथी २,
६, १०; ८, १४, ३; ५; शश्री;
-कस्य माथी १, ८, १; माथी छ,
६, ३; द्विथी; -काः माष्ट २, २,
३०; द्राष्ट ३, ३, २८; -काष्ट
वीथी २, ८; ३; २२; आपथी;
-कात् शश्री १०, ११, १०; वाष्ट
३२, २; अत्राय ६, ९; -कानाम्
शश्री छ, २०, ६; आमिष्ट २, ५,
३; १०; कौष्ट; -कायाम् कौष्ट
७२, २६; -के कौष्ट १, ५, २८;
पाष्ट ३, ११, ५; वैष्ट ६, १९;
३; गोष्ट; -केन काथी ६, १०,
३३; वीथी छ २, ५; निष्ट;

०) वल. १ b) = संसा-विधोप- १ कण. १ c) = (इति-रहित)पद- (=स्थित-). d) वैप १ द. १
e) पाणे. वैप २, ३ सं. स्थिरा गंशा १, २, १ टि. द. १ f) या ९, ११ पराष्टः द. १ g) पाणे. पृ ६९ b द. १
h) कण. > पा. > डन. १ i) पाठः १ (√अस्य[सुवि]) सा अजिता इति शेषः । j) = [अनरजाट]
स्थाली-याक- १ k) वैप १, २, २३ सं. च द. १

-केषु कौश १, ५, २९; शोच १, ३, ४; ९, १४; मायुः -कैः प्राप्ती ११, ४, १२; जाप्ती ४, ४, २१; मायु २, ६, ४; -कौ कौश्री २०, १७ : १९.

स्थालीपाक-मिश्र-

-आग्नि पायु ३, ८, ६; ११, ८.

स्थालीपाक-नव् आग्नि

१, ७, ४; ७; आयु.

स्थालीपाका(क-आ)दि-

-द्विषु कौश १, ८, ३०; शोच १, १४, ११; -दीव् वैशु ६, १८: ११

स्थालीपाका(क-प्र)तुदे-

द्व-द्वानि आप्य २, १९, ११; द्विष २, ५, ८३.

स्थालीपाका (क-आ)

युत- -वृता गोपु ३, ७, २०; ८, ४; ११x४; जैशु.

स्थालीपाकीय- -वान्

गोपु १, ५, २०.

स्थाली-पिटर-संस्थित- -ने

अप ५०, ९, १.

स्थाली-पुलाक- -केत मीशु

७, ४, १३.

स्थाली विल-> -लीय-

कव- वा ५, १, ७०.

स्थाली-संभ्रालन- -नम्

आग्नि २, ५, २ : १२; ८ : ३४, वीशु २, ७, २४; ३, ५, १९; ६, ६.

स्थान्य(ली-अ)न्वारण्य-

-न्धे काश्री ४, २, २३.

स्थाल्य(ली-अ)मय- -शम्

वीश्री २५, ४ : ४.

स्थाल्या(ली आ)दान- -नम्
काश्री ४, २, १९.

स्थाल्य(ली-आ)दि- -दि
कव २, ८, १०.

स्थाल-रूप- -यम् कौशु ५३, १०;
-ये कौशु ५३, १४; १६; २०.

स्थालक- -कैः विष २६, ७६.

स्थालपथ- -पिक- प्रशु. २स्थल- द्र.

स्थाविर- -प्रम्. √स्था द्र

स्थाविर- -स्थाविर्य- स्थविर- द्र.

स्थास्- , स्थास्तु- प्रशु. √स्थिर
√स्था द्र.

स्थिरक- (> स्तैरकायन- पा.)
पाग ४, १, १९.

स्थिरा- (> स्तैरादग्नि- पा.) पाग
४, २, ८०.

√स्थुञ् षाधा. तुदा. ६२. संपरखे

√स्थू(बधा.)> स्वरर-> स्वरस-
वत्-> स्वरिष्ठ- पा ६, ४, १५६;

-कः आपश्री १, ५, १०^६;

भाश्री १, ५, ८; माश्री १, १, १,

५२; २, ३, १, २१; वाश्री; -ठम्

आपश्री ३, १, ५; ७, २४, ७; भाश्री;

-प्याः वीश्री १७, ५०; ८; भाश्री

९, ६, २; वाश्री; -प्याम् वाश्री

१५, ३, २८; २५, ४, ३८; आश्री

१८, ११, १४; द्विश्री १३, ४, २२.

स्वरिष्ठ-मुद- -दस्व वाश्री

१, ६, ७, ३.

स्ववीयस्- पा ६, ४, १५६;

-यः माश्री १, ३, ३, ३; वैश्री,

-यस्वम् जैशु १, ३ : ४; -यसि

माश्री १, ८, २, २७; वाश्री १, ६,

३, २२; -यांसम् माश्री १, १, २,

१९; ३, १, १९; या ६, २२;

-यांसि व्यापश्री १२, ३, १; भाश्री

२, १९, ४; ३, १, ५; ३, ४; वैश्री.

स्ववीयसी- -सोम्

काश्री ५४.

स्ववीयस्-तण्डुल- -लान्

द्विधौ १३, ४, २५^७.

स्वविमन्- -मा काश्री ६, १, ३२.

पुंस्वविमन्-तस् (:) आपश्री ३,

१३, ६; वीश्री ८, १ : २०; भाश्री.

१स्थूण, पाठ ३, १५; पाग ४,

१, ४१; २, ८०; ५, १, ४; ५०^८;

-गयोः वीश्री २, १५ : १८;

-जा वीश्री ६, २६ : २९; ११,

७ : ३७; २५, ११ : ४; वैश्री;

-याः आपश्री १३, ७, ७; वीश्री

६, २५ : १६; २७ : १५; भाश्री;

-व्यानाम् आपश्री ११, १०, ५;

माश्री २, २, ३, २३; -णाम्

वाश्री ८, ४, ७; ६; वीश्री; मायु २,

९, २५^९; कायु ११, ३१^{१०}; -णापाम्

काश्री २६, ५, ३; कायु ५४,

५; मायुः -ने आश्री ४, १३, ५;

१५, ११; शोश्री; -पुं-णेम् कौशु

३, २, ६; शोच ३, ३, १; कायु

११, २^१.

स्थूणी- पा ४, १, ४१.

!स्थूणीसंरणयूयन-

-णम् अय ६४, ५, ६.

स्थूणिक- पा ४, २, ८०.

स्थूणिक- पा ५, १, ५०.

स्थूण, ग-भार- (> स्थूण-

a) उप. = २भा-शुट- । b) उप. = २भास- । c) वृष्टारिक-विशेष- । d) स्थान* इति श्रुतिः ।
e) वी १ द । f) स्त* इति पाठः इति. शोचः (द्र. भाश्री.) । g) त्रैप्र. <स्ववीयसी- । h) सप्त. आपश्री
१८, ११, १८ अकर्मण्य इति पाठे. । i) दृ ३४५ इ द. । j) कर्मणः । द्र. पाठ. पाणि. । १स्थूल-
इति भाष्य. । k) षा- दृश्येति भाष्य, पाठि. । l) पाठे. वेप १ स्थूणाम् शी ३, १२, ६ टि. द. । m) पाठे.
वेप १ स्याले शी ३, १२, २ टि. द. ।

भारिक-) पा ५१,५०
 स्वूपान-गर्- नां कौष्ट ३,
 २, २, भाष्ट ३, २, ३, आपष्ट
 १७, ३
 स्वूपान-देस- शे कौष्ट १, ५ २१,
 २ ८, ११, भाष्ट ३, १३: ७
 स्वूपान प(इ>)दी- पा, पाग ५
 ४, १३१
 स्वूपान-प्ररोहण- शे काष्ठ २७६
 ६
 स्वूपान-मयूख- सन् काशी २६,
 २, १५, २६, ७, २६
 स्वूपान राज- नंग आपम २,
 १५, १०, भाष्ट ३ ३, ७,
 -गम् आपमो १०, १ ४,
 हिमो १०, ३, १९,
 कौष्ट ३,
 २, ५,
 ६, भाष्ट ३ २ ८,
 ३, १,
 पाष्ट ३ ४, १८,
 -जपो
 भाष्ट ३, १३ ८, -जे कौष्ट ३,
 २, ११,
 -जो भाष्ट २, ३
 १०, दिष्ट १, २, ७, ५
 स्वूपान-वर्ष- -शपो कौष्ट ७७,
 ७
 स्वूपान-निरोहण- शे भाष्ट ५
 ८, १
 स्वूपीय- स्वूपण- पा ५, १, ४
 ३स्वूप रा- पाठ ५ ४, -र या ६,
 १२६, -रम् काशी ७ ८,
 १, शे ६, ४०, ४४, या ६
 २२
 रपूर तक्ष () बीधो ३, २१ ९
 ३स्वूप, हा- पाठ १, ९१, पाग २,

४, ३१, ४, ९, ८०,
 ३, -र आपमो १०, २९, ६,
 वैधो १२, २० १५, हिमो ७,
 ३, ११, श्व, -लम् राशी १२,
 २४, २१, लाशी ९, १०, ५, बीध
 २, ५, २, ११, -ला श्व २६, २, ५,
 ३, २, -ले भाष्ट १, ३, ६, -लेन
 शापो १२, २४, २१
 स्वौलक- पा ४, २, ८०
 स्वौलय- लयम् शोध ४
 स्वूप क- पा ४, २, ८०, ५,
 ४, ३.
 स्वूप केर- > स्वौलक-
 राय बीधो ४१ ६
 स्वूप-नाल-कपोल- ल चयू
 ४ १५
 स्वूप करण- पा ३ २, ५६
 स्वूप-चूर्ण- नानि आपमो
 १९, ५, १०, जिधो २३, १, ८.
 स्वूप-ना- राय कष्ट १, ८, १७
 स्वूप ल- न्नात् श्व २३, २,
 २
 स्वूप दूर युव हस्व क्षिप्र सुद-
 -जागम् पा ६ ४, १५६.
 स्वूप प(इ>)दी- पाग ५, ४,
 १३१
 स्वूपविण्ड- > स्वौलविण्ड-
 -ण्डव बीधो ३ ७
 स्वूप पूलास- पाग २ २, ३१
 स्वूप बल- हयो पा ७, २,
 २०
 स्वूपवाहु- (> ष्टु-क- पा)

स्वूपविण्ड- -ण्डव बीधो ३
 ४१- १७
 स्वूप-व- -गम् श्व ३, ४,
 ११
 स्वूप मुख- पा ६, २, १६८
 स्वूप मविष्णु- , ल भायुक्त-
 पा ३, २, ५७
 स्वूप-विम- -रमो श्व ६५,
 १, २
 स्वूप वाहु- ष्टु बीधो
 १३, ७ १३, -ष्टुम् वैधो १३,
 ८ १०
 स्वूप शिरस- -रसे वैष्ट २,
 १२ १४
 स्वूप शिखर(ला-श) रोहण-
 -गे काष्ठ २७७ १
 स्वूप शीघ्र- (> स्वौल-
 शीघ्रि- पा) पाग ४, १, १६
 स्वूपलावकारिकाजीववर्णानि
 आपम २३, ३
 स्वूपाल(श)दि- -दीनाम्
 पावा १, १, ५७
 स्वूपाल(ल)त्रान्त्र- -ग्रम् विष
 ९६ ९१
 स्वूपालोव- > स्वौलालो
 वि- -वि या ७, १४, १०, १.
 स्वूपाल- पाग २, २, ३१
 स्वूपाना- √स्वू द
 २स्वूप- (> स्वौण्य-)
 स्वौन-) पा) पाग ४, १, १०५,
 २, १११
 स्वूपीय- √स्वू द

a) परस्पर पामे । b) परस्पर पामे । c) तु १३५४ k, १३५६ धर्मस्वू इति च नष्टम् । d) उप = ११७० । e) वैष्ट २६ । f) श्व ३ । गहुत् ३स्वूप-दि द, कयत् स्वूपवाहु- इति पाका । g) व्यप । h) श्व । i) श्व इति पामम् । j) ष्टु. < स्वौल विण्ड-वि- । k) तु पागम् । l) [आरपडित पुरय] स्वूपाना श्वाकारिकाया (शतपथ्या [कानकज्वा इति मत्ता] जीवन्त्यां धूर्णानि (शरियाका) इति माध्यायम् । लम् ३स्वूप र इति पामे । m) तु रक, वैतु दु < श्वीवद, भाष्ट श्वीय- > श्वीवि- इति च । n) तु पावा । २स्वूपान- इति भाष्टया प्रम् ।

१ स्थूणी^१ आषम २, १५, ५, आषिष्ट
 २, ४, १ १७, १८, भाष्ट २,
 ३ ११, द्विष्ट १, २७, ७
 स्थूप्य-^१ स्थूरा- √स्थू द
 स्थूर-> स्थौर- न ऋध २,
 १०, ११६
 स्थूरा^२- (> स्थौवं- १ >
 स्थौर- १)
 स्थूरा- पाठभो २, ३, २५.
 स्थूरा दृढा जाती चूर्णानि^३ द्विष्ट १,
 १४, ७
 स्थूस्ति^४- रि आषभो १८, २१,
 ७, वीथी १२, १८ : १७, -रि.
 वीथी १८, २० ७, २०, -रिणा
 द्विथी १७, १, ३६.^५
 स्थूल^६ पाथा सुरा आवा परिवृहणे
 स्थूल- √स्थू द
 स्थूल^७- (> स्थौलेय- पा) पाग
 ७, १, १२३
 स्थेम्न-^८ स्थेष- प्रष्ट √स्था द
 स्थैरकायण- स्थिरक- द
 स्थैरायणि- स्थिर- द
 स्थैर्य- √स्था द
 स्थौणक-^९ आभासिक-^{१०} षिक- प्रष्ट
 √स्थू द
 स्त-^{११} स्तपन- √स्ना द
 स्तस् पाथा दिवा पर निरसने
 स्ना^{१२} पाथा अदा पर वीचे,
 स्नाति शोथी १५, १३, १४,
 आषभो, स्नात वीथी ५, ५ ३०,
 आषभो ८, ८, १५ x x, द्विथी,
 स्नान्ति शोथी १८, २४, २१,
 स्नाति अष ७० ४, २, ५,

स्नादि पाष्ट ३, १०, २८,
 स्नावात् आषभो १५, २०, १९,
 वीथी २, १९ : ४५ x x, आष्ट
 स्नावते अष ७०, ४, २,^{१३}
 स्नायेताम् अष ३६, १, ११
 स्नयन्ति आषभो ७, १२, १,
 वीथी ३, १, १, २५, माष्ट
 स्नायवति वीथी १७, ११ ४,
 द्विथी ७, ३, १, आषिष्ट,
 स्नायवति शोथी १६, १८,
 १०, आषभो १८, ३, १, आषभो,
 स्नायत माष्ट १, १३ १,
 स्नायेथ् आषिष्ट ३, ४, १
 २५, १०, १ ७, वीधि,
 आषवेयु आषिष्ट ३, १०, २
 ५, वीधि ३, ९, ३
 स्न- पाथा ३, ३, ५८
 स्नपन^{१४}- नाम् आषम १, १, ७^{१५}
 स्नपना (न-अ) र्थि- थंम्
 शानां २७, ४, -र्थां शानां २०,
 ४
 स्नात, ता- पाग ५, ४, २१, -
 वीथी २, ८ ११, आषभो १०,
 ४, २, वीथी, आषभ १२, ७,
 -तम् काठभो ५२, वीथी,
 -तस् पाष्ट २, ७, १, अष ३३,
 ७, ४ शष १००, -ता वीथी
 २९, ११ ४^{१६}, अष, -ता आष्ट
 २, १, ३, वैष्ट ५ २ १४,
 जैष्ट, द्विष्ट ७८, १०^{१७}, -ताम्
 काथी १७, ३, ३, आष्ट ७, १, २,
 वीधि २, १, ४, -ताम् वीथी
 १७, १९ २१, द्विष्ट १, १०,

३, -तामि अष ७०, ४, ४, -ताम्
 द्विथी १५, १, ४, १, कौष्ट १, १४,
 २, शोष्ट, -ताय वैष्ट २, ९ : ६,
 वा ७, १३, -ताया वैष्ट ३, ३
 १, -तायाम् पाष्ट १, १३,
 १, वैष्ट ६३ : २, आषभ, -वायै
 माष्ट १, १३ : १, -ते कौष्ट ७१,
 २१, -तेन माष्ट १, २२, २, -वै
 वीथी १५, २ १८, माथी २, ५,
 ४, १५, ५, २, ११, १७, माष्ट
 छातक- पा ५, ४, २९, पाग^१
 २, २, ९, ६, २, १५१, -क,
 शोथी ७, २१, १, आषभो १२,
 २, १९, वीथी १७, १३ १६ आष्ट
 ३९, ६^{१८}, पाष्ट -कम् वैष्ट १,
 ४, १, -कस्व द्विथी १९, ३,
 २३, पाष्ट २, ५, २१, माष्ट.
 -क निष्ट ६, १० ११, ७,
 ८ ३८, पाष्ट, -काद् वीधि २,
 १, ८, -कानाम् वाष १२, १४,
 -काय आष्ट १, २४, २, कौष्ट
 ३, १०, ३२, शोष्ट २, १५,
 ९, वाष १३, ५९, द्विष्ट २, १,
 १०९^{१९}, -वै वाष्ट ६, ३३
 छातक-पुरोहित-^{२०} शो वष
 २५८
 छातक-नाल-गुह-श्रेष्ठ रोमि
 मारुष्ट-अन्तर्वहो-^{२१} श्रीनाम्
 वैष्ट ३, २, १
 छातक-राषद्- पाग २, २,
 ३१
 छातक-वर् आषभ १, ३०,
 ४, द्विष्ट १, ८, २

a) पाठ (हू ३०) स्थूप्यम् इति शेष (हू तथा. शौ ३, १२, ६, Old द्विष्ट ७, ७७५ क व) ।
 b) पृ २७३४ ७ द । c) दृढा =सतवदी इति (हू माष्यम्, Old व) । दोष पृ २७३४ मा द । d) वैष्ट १ द ।
 e) -रिणास् इति पाठ^१ यन्ति शोथ (हू ता १६ १३ १२) । f) -वप । g) वा ७ १२, १२, २९ पराष्ट द ।
 h) गावक्यायो कृत् । i) पागे वैष्ट १ स्तुवती द्वि द । j) पूर्वैण समस्तमिति (Internitz) । k) पागे
 वैष्ट १ श्वासा ना ७, १२ द्वि द । l) हू पाका । आषक- इति माष्टा प्रष्ट । m) पागे पृ २४५- १ द ।

छातक व्रत- नानि वाध
 १२ १, आषाढ १, ३०, ६, वीथ
 २, ३, १०, हिष १, ८, ६
 छातकव्रत-लोप- -पे
 विध ५४, २९
 छातक-सिंह-म्यात्र यस्त
 ह्यन्^० वृषभ-राजन्- ज्ञाम् कौम्
 १३, ४
 छातका(क-अ)पेठ- तम्
 वाधुथी ४, ९० ३०
 छात उर्य^०- स्यम् काथी ७,
 ३, १६
 छात-व्रत- -उम् कौम् ४२ १८
 छात-शिरस्- रसि विध ९९,
 १६
 छाता(त अ)मुल्लि- -स अष
 ४, १, २, ८, १, ३, -साम् वैष्ट
 ५, १३ ८, कौम् ८३ ११
 छाता(त अ)कृत्(त>)भा-
 -नामि विध ८६, १२
 छातो(त उ)रस्यशन-काल^०-
 -ले अष ४३ १, २
 छातो(त-उ)तकेश^०- -शे नष्ट
 ४१, ५
 छात्र- पाठभो २, ३, ७६,
 छात्र^०- -उम् वाधुथी ३, ९९ ४
 छात्रा काथी ७, २, १४, आषाथी
 छात्रा-कालक- पाग २, १ ७२
 छात्राकालक(क आ)दि-
 -दिगु पाषा ७, १, ३७
 छात्री पाग ७, १, ४९
 छात्र- -नम् वाधो १, ७, २, ४२,
 आष, -नस्य वीथी १७, ३९ ७,
 आषिष्ट १, ३, १ ८, -नार वीथी
 १५, ८ ८ कौम् ३, ९, ३७,

शाय, -ने कौम् ३, ९, ३९, शाय
 ४, ७, ४४, अष, -नेन कौम् ६८,
 २५, अष ४७, ४, २, ५, अष,
 -नेषु विध २२, ७१
 स्नान-कर्मन्- -मंग कष २ २,
 १२, -मंगि अष १२७
 स्नान कार्य- -यां अष ४२,
 २, ५
 स्नान ज- जम् शध १०४
 स्नान-जप- -यम् वैष्ट ६ ८
 ११
 स्नान तम् () अष ३५, २, ८
 स्नान दान जपा(प-आ)दिक-
 -कम् शेष ११५
 स्नान पवन-मन्त्र->अन्(न
 भा) अमनमन्त्र-प्रोक्षण-युष्वाह-
 वाचन- नानि वीथी २ ६ ३
 स्नान-मन्त्रवि- -ति काथी १०,
 ९, ५
 स्नान-फल- -सम् शध १००
 स्नान भोजन-काल- -स्यु शध
 ५८
 स्नान मात्र- -प्राप् विध ८५, ३,
 -नेण आषिष्ट ३, १०, ४ ३१,
 स्नान-वस्त्र- -ने अष ४२ २, ८
 स्नान विधि- -वि वैष्ट १, २
 १, -विम् आषिष्ट २, ६, १ २४,
 अष ४२, १, १
 स्नानविधि-युक्त- -तेन
 आषिष्ट २, ६, ८ ४९
 स्नान-वेदि- -दिम् अष २१,
 ५, १
 स्नान-गन्ध- -न्दे दाष्ट १, १,
 १६
 स्नान शरी- -टीम् विध ६४,

२६
 स्नान-शील- ल कष २, १,
 १६
 स्नान-शौच-स्वाध्याय-तपो दाने-
 (न इ)ज्यो(प्या-उ)पवालो(स ठ)
 पस्थनिग्रह व्रत-मौन- -नानि
 वैध २, ४, ४
 स्नान संध्योपासन स्वाध्याय-
 सप्तदोम-मैत्राचर्वा (र्थ-आ)
 दि-हीन- -ने वैष्ट ६, ९ १.
 स्नाना(न अ)क्षिरपशैना(न अ)
 प्याश- -शी कष ३, ३, १०
 स्नाना(न-अ)अना(न-आ)दि-
 -हीनि वैष्ट ३, ९ १
 स्नाना(न आ)दि- -दि काथी
 २५, १९, १८, -शी वैष्ट ६, ८
 ११
 स्नानादि नियमा (म-आ)
 चार्- -न वैध १, ४, १
 स्नाना(न-अ)न्व- -न्वम् वीथी
 २०, २३ ८, कष ३, ४, १०
 स्नाना(न अ)न्तर- -रम् आषिष्ट
 २, १, ५ १.
 स्नाना(न अ)र्थ- -धम् आषिष्ट
 २, ६ १ २४, कष १, १०, ९
 स्नाना(न अ)ई- -ई शध १००,
 -ई. वा १, ९
 स्नाना(न-अ)लक्षण- -ये वैष्ट
 ७, ५ ८
 स्नाना(न-अ)लकार- -शी वैष्ट ५,
 २ ६.
 स्नानीय,पा^०- -यम् भाष्ट १,
 १० १२, विध ६५, ६, -यानि
 वैष्ट २, १ ३, -यानि वीथी
 ४६, १७, -येन माष्ट २, १९

a) कृष्ण- इति पाठो धृष्णि- इति शोध (तु ईरुत्तु टि) । b) उप <√षम् (आप्यादाने) ।
 c) दान > पाग । d) कम् । e) वैष्ट १६ । f) विध । g) पात्र मनीयदम्

१७, दिष्ट १, १, १९^१, जेष १,
१८:७.

स्नानीय-विण्ट- -वट् भाए
२,१८:२.

स्नानीषो(य उ)च्छादित^०-
-त आण्ट १२,७.

स्नानो(न-उ)दक- -केन अण १६,
१,७.

स्नानो(न-उ)पस्वदान- -नात्
शेष ३५४

स्नायक^०-
स्नायन- -ने वाए ४,३.

स्नायवत्- -धन् वैताधौ ५, ११.

स्नायविष्वा काधौ २५, ११, १७,
आयधौ

स्नायव वीष्ट २, १, १६, ४, ११,
दाए २,३,१,७.

स्नायवत्- -स्वद् वीधौ १७, ३९: १,
आयिष्ट १,३,१ १, आयष्ट

स्नायव^०- (> स्ना प्रस्थ- वा) पाण
६, २,८८

स्नात- प्रष्ट √स्ना ६.

स्नायु^०- पावभो २, १, २, -यु गीध
२४,८, वृदे ७, ७८, -यूनाम्
द्विधौ २४,६,१८.

स्नायु शल- -नाति विध ९६, ८१,
वा १४,७.

स्नायन्^०- पाठ ४,१११, -व वा २,
५, -वनि वाध २०, २६, -वसु
आयम २, ११, १९^१, -वा या
१४,६, -वानम् अणाय २, १^१,
-वानि वाध २०, २६, -न्न

वा १४, ९; -न्नाम् आधौ
१५, १५, १; माधौ ११, १५,
२४.

स्नायन्- -न्नेषु वीधौ २, ५:
१८^१.

स्नायवत्- -ज्न् कौम् १५, १३.

√स्निह^० वाधा, सुरा. पर. गती.

√स्निह (वधा.)^१ वाधा, दिवा.,
सुरा पर प्रीती, सेद्वयति अण
४८, १९^१, निप २, १९^१, वा
७, १४.

स्निग्ध,ग्धा- -ग्धः अण २४, ३, ३;
२९, १, ४x४, -ग्धम् आ ७०^१,
२, ४, ३, ३, वाध २३, २४, सुपा
१, २५, -ग्धा अण ३०, १, ३,
-ग्धा कृष्ट १, २, ३, अण ५२,
२, १, ५८, १, ५x४, -ग्धानि
वैष्ट ३, १७: १, आ ५२, ११,
१, ५३, २, १, -ग्धाभि. अण
७०^१, ४, २, -ग्धे अण ६३, ५,
१, -ग्धेन वाध २३, १९, -ग्धेषु
आ ६१, १, ४, विध ३, १, ६.

स्निग्ध-क्रेवा नल इमधु तत-
त्वत्-रोम मावा^०- > पित्-
-विण अण ६८, १, २०^१.

स्निग्ध वीध^०- -य अण ७०^१,
३, १, ५, ३.

स्निग्ध-ता- वा आयि ८, २१

स्निग्धत्व- -त्वम् अण ५१, २,
५, -स्वान् अण ५२, ५, ५

स्निग्ध-वर्ण^०- -नी अण ५३, ६,
१, -र्णा अण ५२, ३, ५

स्निग्ध-वासव^०- -साः निम् ४,
३, ५

स्निग्ध रिमल-तल- -दर्शन^०-
-ने अण ६५, १, २.

स्निग्धा(स्न-अ)मल-जल-
प्रणम^०- -हवा अण ६३, ४, १

स्निग्धो(ग्ध उ)त्थायिन्- -धौ
अण ७०^१, २, १.

स्निग्ध, स्नीह^०- स्निक् द्विधौ ६,
५, १५, भाए ३, १: २७, स्नीक्
वीधौ ९, १८ ३

स्निग्ध, स्नीग्धिति^०- -ति. वीधौ ९,
१८: ३, वाधौ १, ४, ४, ६,
द्विधौ ६, ५, १५^१, भाए ३, १.
२८.

स्नीहीति- -ति वीधौ ९, १८ ३.

स्नेह^०- पाण २, ४, ३१, ५, ३, १५,
१७, -ह्व कौधौ ११, ११-११,
अण २४, २, ३, ७०^१, ७, २४x४;
शेष ३९४, वा १४, ५, -ह्वा
वाए १४ ३१, -ह्व वाध २३,
१६, याति २, ६३, -हानाम्
शंध १७६, -हे अण ७०^१, ८,
३, -स्नेह्य अणाय २, १

स्नेह द्रव्य- -व्याप्ति आयिष्ट २,
६, ७-३१

स्नेह योग-प्रवर्ति(उ>)वा-
-ना वैध्रीका २१५

स्नेह ल- वा ५ २, १७

स्नेह-लक्षण व्यञ्जन(न-वा)व-
(दि-अ)ज- -लेन आयिष्ट २,
६, ७: १५

a) स्नायवी^० इति पाठ १ वनि बोध. (तु Bōhi [ZDMG ४३, ६००]) । यद्वा स्नायनी^० इति Bōhit (ZDMG ५२, ८२) इति । b) उप उष्मा>उष्का इति । c) वृ २७१५ । d) तु भाएवा । स्नाय- इति पाठि. । e) वैष २, ३४ द । f) वैष १ द । g) पामि वैष १, २०२१ k द । h) तु BFG. । i) 'सम ३' वा ७, १२ वा ७, २, ४५, ८, २, ३३ पराएट द । j) वा हिंसाया इति । k) कस > इल । l) 'सम ३' वा ७, १२ वा ७, २, ४५, ८, २, ३३ पराएट द । m) वल । n) इल > वल > वल । o) = अस्निग्ध-शुद्धस्नायवत्-रोमकोमिन इति सरस्वती शेष । । p) वल । q) इल > वल > वल । r) = अस्निग्ध-शुद्धस्नायवत्-रोमकोमिन इति सरस्वती शेष । । s) वल । t) इल > वल > वल । u) = अस्निग्ध-शुद्धस्नायवत्-रोमकोमिन इति सरस्वती शेष । । v) वल । w) इल > वल > वल । x) = अस्निग्ध-शुद्धस्नायवत्-रोमकोमिन इति सरस्वती शेष । । y) वल । z) इल > वल > वल ।

स्नेह वच्- पा ५ २, ६५,
-वच् धाए १७, १८, आपध २,
१९, ३३, हिथ २, ५, ८४, -वति
आपध २, ३६, २४, हिथ २, ५,
२४, -वाच् अप ५३, ६, १
स्नेह विपाठन- ने पा ७, ३,
३९

स्नेहा(ह-अ)फ- न्म विध
५१, ३५.

स्नेहा(ह-अ)नुगणत्व- न्वात्
वीथ १, १०, १६

स्नेहा(ह-अ)नुमदान- नम् धाए
४८, १, ४०

स्नेहानुमदान-सामान्य-
-न्धाए या ६, ११

स्नेहा(ह-अ)पहारिन्- नी धाए
३७६, ३७७ १८

स्नेहन्- पाठ १, १५९

स्नेहन- ने पा ३, ४, ३८

स्नेहवच्- वच् माथी १, ७, १, ४०

स्नेहयिक्वा- काठभी १२२

√स्नु^० पाषा अदा पर प्रसवणे

स्नु^० पाषा ६, १, ६२

स्नुपा^०- पाठ ३, ६६, -या आथी
२, ११, ८१, उप १८९, वीथ
२, २, ६४, कथ २, १०, २८,
कुं ५, ५४, ७, ३०, या १२,
१४, -पाथाम् आपध १,
६, ७, धाए २५, ४७, -वाच्
मुप ८७ ६, कुं ५, ७९,
-पाथाम् वीथ २३, १२

स्नुपा-गमन- नम् विध ३४, १

स्नुपा-गमिन्- नी धाए ३७७.

स्नुपा इत्युच्- > *री(व)> पा^०-
-या आथी २, ११, ७.

√स्नुस् पाषा दिवा पर प्रदने

√स्नुह्^० पाषा दिवा पर उद्विरो
स्नुहि- पाठमी २, १, १५१

स्नुहम्^०- -हानम् आपथी १०,
१४, १, वीथी २८, १ १८

स्नेह- प्रच् √स्निह् ६

स्नेहु- पाठ १ १०

√स्ने पाषा भ्वा पर प्रेष्टने

√रपन्द पाषा भ्वा आत्न किञ्चि-
चलने, सपन्ते पाठ १, १४, २,
रपन्दे आथी ३, ११, ७, आथी
९, ७, ३, सपन्ते माथ १, ३, ४

रपन्दन्- नदत्त वैग् ६३ ६

रपन्दन्- नम् माथि २, ६,
-नात् विध २७, २

रपन्दमान- नेन वैग् ७, ४ १

स्प(न्ध)> न्दवा^०- न्दवा वीथी
६, १७ १६, १९ १९, २१ .
२१xx, आथी, -घाति
आपथी २०, १७, १, हिथी १४,
३, ५६ -न्धास् वीथी ६, २४

१७, २५ २२xx, वाथुथी,
-न्धावै वीथी ६, २६ ९

रसपन्दन^०- (> सान्दन- पा)
पाठ ४, १४४१

√स्पर्थ पाषा भ्वा आत्न लघ्वे,
स्पर्थाम् निह् २, ९ १३,
अस्पर्थेत्तम् वाथुथी ४, ६४ २,
अस्पर्थेत्त वीथी १४, ४०, १,
स्पर्थेत्त आपथी ६, १८, २,
माथी ५, १, ७, ४१, वैथी

परस्पृशते स् ५ ३, परस्पृधिरे

वीथी १८, २२. १०१
पुंअपस्पृशेयाम्^० वीथी १६,
२६ ९, अत्रा ३, ४, १, पा ६,
१, ३६.

स्पृशे, धीर्न- नम् स् १९, २.

स्पर्थनीय- > ष्व अर्वा- ष्व
या २, १४

स्पर्शमान, वा- अ वीथी १३,
२ ३, ५ ४xx, हिथी, -ना
स् १०, १, -नेव वीथी १४,
१६ : १४, आथि २, ५, ५ :
१०.

स्प(र्श, धं)> घां- धंवा स् ३०,
१, -घां वीथी १४, २१ : २३,
-धंवाम् आपथी २२, २, ९,
हिथी १७, १, २६, अत्र ४८,
२८, या ९, २९, पा १, ३, ३१.

पुंस्पर्शितुम् अत्र ४६, ९, २१, १०,
३०

पुंस्पृष्- स्पृषः वीथी १८, ५, १,
आथि ३, ५, ६ ११xx, वीथि

स्पर्श- प्रच् √स्पृष् ६

स्पृशु^०- शौव वीथी १८, ४४ २१

√स्पर्ष्^०

√स्पशु^० पाषा भ्वा उम बाधन-
स्पर्शनयो, जुग उम प्रहृणत्-
श्लेषणयो, पुंस्वातापचय आपध
२, १६, ४, भाए २, ७-१२,
स्वातापेत्तम् आपथी १४, २५, १,
हिथी १५, ६, २१, स्वातापेत्तु^०
आपथी ९, १०, १२

परस्पृशते पावा ७, ३, ८७

पुंस्पर्श- स्पर्श आपथी १६,
१८, ५, वैथी १८, १६ ४, हिथी

a) पा ३ १, ८९, ७, २, ३६ परागृह् द । b) वैग् ६ द । c) = इति विशेष । d) पा ७, २, ४५.
८, २, ३३ परागृह् द । e) = सिद्धाणिका- । f) = रज्जु- । g) = श्ल विरेप- । सपन्दन- इति पाषा ।
h) स् पाठ । i) पठ । j) = देश विशेष- । k) द २१५५ । द । l) पा ७, ४, ९५ परागृह् द ।
m) पा शान्ते इतिरिति माथम् ।

११, ६, २१; स्पशाम् सुभ ३, २२१.

स्पशान- नैः वा ५, ३.

स्पष्ट,ष्टा- वा,पावा ७,२,२७, -ष्ट वीथी ४,१०१५, ५,११६: ८; १४,१३०२८, वीथ २,५,६३, -ष्टम् वीथी १०,२२-११, १२, १: १५,४: १२, काण्ड ४१: १८, वा ५, १३, -ष्टा आ श्री ७,१४,१४१, -ष्टे वाधूथी २, १९०१.

स्पष्ट-ना-ज्ञान-ने विध २७, १

स्पष्ट-तार^{७०}- नम् आ ६८, १, ३२

स्पष्ट-मासविशेषा (प-आ) ध्या-विहित^७- नम् काण्ड ४३ १३.

स्पष्टी✓छ, स्पष्टीकरवाणि कप्र १,८,२२.

स्पष्टी-कृत- नम् वीथीका १३२

स्पशान- नै मा ५,३

स्पशानधिया आपम २, १६, ४, भाग २, ७० १३.

स्पशित- वा ७, २, २७

स्पशान्द- २१-न्दन- द

स्पशर्ह- ✓स्पृह द

✓स्पृ पाषा स्ता पर श्रीतिपाउनवो श्रीतिवचनवोरथ, अरथ शत्रा १,१०३१

स्पृष्टमोमि काथी २५, ६, ६, वाधूथी ३, ४४ ११, १२, ४५ ६, ७, अत्राय २, १, स्पृणोतु वीथ २, ५, २९१.

अस्पृणुत गाधूथी ४, ६५: ३ १०९: ५.

अस्पृणुतिव वि आपम २, १९, १४१.

स्पृत्- स्पृत् माथी ६, २, १, २४.

स्पृति- नयः वाधूथी ३, ४४: ११, ४५: ६, -निभि अत्राय २, ९; -ती काथी २५, ६, ८, वाधूथी ३, ४४: १०, १२, ४५: ५.

स्पृश- पाठमोड २, २, ६.

✓स्पृश^७ पाषा दुदा. पर. संस्पृशने, स्पृशते आपथी २४, १२, ८, अत्र ७०, ३, २; स्पृशति वाधूथी ४, २०: ५, १९, वाथी, स्पृशन्ते द्विपि १०: १३१, स्पृशन्ति नाथी ४, १५, ३, वाधूथी ४, २७ ६, वीथ, स्पृशामि वीथ १, ४, ६१, अस्पृशत वाधूथी ४, २६: २, ५५: ३, ६, वृदे ४, ७५, अस्पृशन् शत्र २, १०, ६०, वृदे ७, १०२, स्पृशेव वीथी २०, २५: २४, २८: २६, २९, ११ ५, वैथी, नाशि १, ६, ६^७

अस्पृशत् आपम २, २२, १११, भाग २, ३० १४

अस्पृशति वाधूथी ४, ६०: ७, वाथी ३, ३, २, २३, वीथ, स्वकीयत् माथी ३, १, ३४, वीथ ३, ३, १०

स्पृश (वत्रा)- वा ३, १६, पाग ५, २, १५, -शै. वीथीका ४३, ७९, शत्रा ६५, श्रुता, वति १,

६५, -शैम् अत्र २४, २, ३, शत्रा १, १५, ६, ५४, -शैस्य शत्रा ६, ३०, वीथ १, ४४; -शैर् अत्र ७७, १, ३, ८, ३, ६, शत्रा, -शैर् अत्र २४, १, अत्रिष्ट ३, ६, ४: १५, वीथि, -शैर्वात्मा तैत्रा १, १०, वीथ १, २९, वीथि, -शैर् अत्र ४८, ४७, वीथ १४७, १६९, शत्रा, -शैर्मा वा १४, ४, -शैर्गु वाथी १, २, १६, शत्रा, -शैर् शत्रा १२, ५, १०, १२, शैथि २४९, माथि

स्पृश-पर^७- र तैत्रा ५, २७, १३, १५, १४, २७, -रात् तैत्रा १४, ९

स्पृश-पूर्व^७- नै. तैत्रा ५, ३४

स्पृश-यम-वर्ण^७-वात्- र आथि ५, १

स्पृशै रेफ-सधि- धय. शत्रा ४, ७२, -धीन् शत्रा १४, ३७

स्पृशै-वत्- वा ५, २, १५

स्पृशै-वर्ष- गा. शत्रा १२, ३, -शै शत्रा ६, २८, -शै शत्रा ५, ४९

स्पृशै-स्थान- मैतु तैत्रा २, ४७

स्पृशै(शै-अ)वोष-संयोग- नो पावा १, ४, १०९

स्पृशै(शै अ)न्व^७- न्वत्स्य श्रुता १, ९०

स्पृशै(शै-अ)न्वत्स्य- स्थानम् शत्रा ६, १७

स्पृशै(शै-अ)न्वत्स्य- शी शत्रा ४९०

स्पृशै(शै अ)न्वत्स्य(स्था-२७) धनम्- न्याग याति २, १.

a) सा (ते वृ ४२७) तष्ट इति पाठः । b) वस । c) उप = तारकाः । d) कञ् > पस > सुत । e) वैप १ द । f) = आहुति विशेषः । g) वा ४, ३ वीथ २, १०२ वा ८, ३, ११० पावा ३, १, ४४ पराष्ट ६ । h) न्वत्स्य इति लास । i) पागे वैर १ अस्पृशत् श्री ६, १२४, २ टि द । j) भाग, पाग. [भ्याधि विशेष (वा [तु कैवट]), १गुण, पञ्चमीय-वर्ण- (शत्रा श्रुता प्रस)] । k) इत्स. > वत्स. ।

स्पर्शान्तरसोष्ण-वेद-वस()
 शैवि २४५ ३०६
 स्वर्णो(शै व)न्त्रिक > क्-
 कामि शय २३,
 स्वर्णो(शै व)शय- -यागम्
 कथा ६, १०
 स्वर्णो(शै व)न्म-पर- -राव
 कथा ६, ४७
 स्वर्णो(शै व)न्म-सधि- -घय
 कथा ४, ७७, -धीन् शश्रा १४,
 ३७
 स्वर्णव- शैन् आशिर ३, १०, ४
 ३१
 स्वर्णन- -गम् जैश्रीका ८०, वैश १,
 ५ ४, शीष १, ५ ७५, तैत्रा २,
 ३३, रवि १, ४, -नाव ४५ ५२,
 १५ २, शय ४५७ १४, -नै
 या ५ ३
 स्वर्णन दर्शन- -जेयु सुष ४७
 स्वर्णविषया माथी १ ३, १, ५×५,
 वैश १, १४ २, वैश २ १५, ४
 *स्वर्ण- पा ३, २, ५८
 स्वर्णव- -भाताम् सुषय ८४ १,
 -गम् वीथी २, १४ ८, १५,
 ३ १७, वैश
 स्वर्ण-गी- -तीम् सु ७, ५
 स्वर्णति-> *दि-कर्मन्- -मंग वा
 ३, २१, ५ १६
 स्वर्णव वैश ५ ८ ४, वीथ
 स्वर्णव- इयम् विष ५, १०४
 स्वर्ण घा(प्रा) * -ए दाधी ५ २,
 ५ साधो, -घम् वीथी २७ १
 ५ वैथी १५ २. ४, शय,

शय १३, ९, शीय १, २९,
 ३३, माशि ६ ८, ९ -डा
 वैथी २०, ४. ८, पाशि २३,
 वाशि २ १४, -डाव सुषय ८८
 ४, -शानि विष २३, ४१,
 -शामि वाप ३ ३४, शंष २४,
 विष ६२, ९, -ष्ट वैश ७, ६ ८,
 शय ४५७ १२, १३, वैष ३, ८,
 ३, -ष्टौ शय ४५७ ११
 स्वर्ण-करण- -ग्या वाशि ३, ४
 स्वर्ण बल- -ला जैश्रीका
 १०७
 स्वर्ण-ना- -ना वाशि ८ २
 स्वर्ण-व- -वम् वाशि ८, २५
 स्वर्ण-> *दि समिश्र- -अम् वैष
 २, १५, १०
 स्वर्णवा माथी १, ३ ३०, माथी
 √स्पृह्^१ पाषा चुरा लभ ईप्तायाम्,
 स्वर्णवेव वा ३ १६†
 स्वर्ण- > *णोय- -यानि वा ३,
 ११
 स्वर्ण(व >)वी- -तीम् शय १,
 ३१, ९
 स्वर्णवायम्^२ - पाठ ३ १६
 स्वर्णवाळ- -पा ३, २, १५८
 स्वर्ण- डा वृदे १ ३५ ५२
 *स्पर्श, शैव- -डां वा ३, ११६,
 -डां शयश्री २४, १३, ३
 √स्पृ^३
 स्फ-> *स्फेयस्^४, स्फेष्ट^५ - पा ६, ४,
 १५७
 √स्फिट् √स्फिट् टि द्र
 √स्फिट् √स्फिट् टि द्र

स्फटिक- पाठश्री २, २, १५, -के
 शैवि १८०
 √स्फणद्, √स्फणद् √स्फणद् टि द्र
 √स्फट् √स्फट् टि द्र
 √स्फट् (= √स्फट्) > स्फट्-
 स्फट् शंश्री ११, ८, ७†^६
 स्फण्टक^७ - (> *व-पा) पाग ४,
 १, १५१.
 √स्फाय् पाषा भ्या भान् इदौ >
 *स्फाति^८ - *वै^९ आपथी १, १८,
 ३, वीथी १, ५ २२, माथी
 स्फाति-करण- गम् कौट २१, १
 स्फातिम्-भाहर्^{१०} - ना जैश १,
 २३ १६†
 स्फार- पाठ २, १३
 स्फार- √स्फट् द्र
 स्फाल- √स्फट् द्र
 स्फिफा^{११} - > *वा चाल- (> स्फैग
 चालिक- वा) पाग ४, ४, १२†
 स्फिग-वृत्त-ग्रहण- गम् पाषा ६,
 २, १८७
 स्फिफग- (> स्फैगायनि- वा) पाग
 ४ २, ८०
 स्फिफा, ज^{१२} - पाग ४, ४, १२,
 स्फिवा विष १६, ९
 स्फैजिक- पा ४, ४, १२
 स्फिग वज्र- -अम् शिवि १६ ७
 स्फिफज्- (> स्फैगायनि- वा) पाग
 ४ २, ८०
 √स्फिट् पाषा चुरा पर लेहने
 √स्फिट् √स्फिट् टि द्र
 √स्फिट्^{१३} पाषा चुरा पर शिला-
 गाम्

a) यत् । b) नाय (कथा माशि. पाशि प्रम्) । c) पा १ ४, ३६, ८, ३, ११० पराम्भ द्र ।
 d) वैष १ द्र । e) वृ २४२२ म द्र । f) पाग < स्फिर- । g) = स्फट्- । h) पाषे वैश १ स्वर्ण
 टि द्र । i) व्यप । j) पाषे वैष १, १२६ ३ ० द्र । k) लभ पर दि भ्रुह् । l) = निरान्- ।
 m) पुनचाल- इत्यन्ते (द्र पागम) । n) [पश] माग्या पाति । o) = स्फिफ । p) √स्फिट् √स्फिट्
 शि [पश] भट्ट ० ।

स्फिर- पाठ १, ५३

✓स्फी (=√स्फाय्) > स्फीत- पा
६, १, २३, -तम् शेष २६२,

-तानि अप ५३, ३, ४

स्फीतवत्- पा ६, १, २३

✓स्फीति- तिम् भाष्य २, २०, ३३,

३, २०, ३३, आशिष्ठ ३, २, ६ : २

✓स्फुट* पाषा म्वा. पर विशरणे
(विस्तरणे)^१त्, म्वा भास्म, तुदा
पर विस्तरने, चुरा उम भेदन,
स्फोटति कौट् १३५, १.स्फुट्ये भाषी ३, १४, १३, माप
२, १५, ६

स्फोटवेत् अप ३५, १, १२

१स्फुट- २^० याशि १, ४४, नाशि

२, ३, १८, -त्यम् अत्र २४, १, १,

५२, १, १९, कौटि ४१

स्फुटस्मिन्^१ -स्मि. अप ६३,
१, १७

स्फुटिन्- टी माशि २, ११

स्फुटि(त>)वा- वा अप २२, ३,

९, ३, २३, ३, ५, याशि २, ८

स्फुटिता(त-आ)हुति- ति अप
२७, १, ४स्फोटव्- -यति कौट् ९३, ४१,
-तल्लु कौट् ४७, २९स्फोटन^०- न शौच १, १०३, २,
३८, -नाति भाष्य २, २०,
१६^१स्फोटय(त् >) -ती- न्य अप
५८^१ १, १०

स्फोटित-> स्फ(त-अ)स्फि-

घ(वडा)>ण्ट^०- घटा अप

६१, १, २२.

२स्फुट^० (>स्फोटायन- पा) पा
४, १, ११०.

✓स्फुट् पाषा तुदा. पर संवरणे

✓१स्फुण्ट*

✓२स्फुण्ट, ✓स्फुण्टः पाषा
चुरा पर. परिहासे✓स्फुट् (वधा)^१ पाषा तुदा पर
सचलने स्फुटणे च, स्फुरति निघ
२, १९^१, स्फुट् या ५
१७^१कं.

२स्फार- पा ६, १, ४७

स्फुरण- -णम् वैश्व ३, १० २

स्फुरण वत्- -यति अप ६९, ५,
२

स्फुरव्- -वत् कौट् ५८, २, -रत्

अप ६९ ८, २, -रत् अप ५२,

२, ३, -रत्तम् अप ६९, ५, ४

स्फुरित- -ते अप ७०, ७, २

✓स्फुल्ल^० पाषा म्वा. पर विसृती

✓स्फुल्ल (वधा) पाषा म्वा पर

सचलन, स्फुल्लति निघ २ १९^१*

स्फाल- पा ६, १, ४७

स्फुलिङ्ग^१- पाषा २, २, ६३, -जान्अप ५८^१, ४, ९

स्फुलिङ्ग-क- के अप २३, १२,

२

स्फुलिङ्गो(ह उ)पचित- ते अप
६३, २, १✓स्फूर्त्^० पाषा म्वा पर वज्र-निघाये स्फूर्त्ति अप ४८ ६^१स्फूर्त्तवत्- -वत् भाषा २ ४, १५^१

स्फेयस्-, स्फेळ- स्फ- ३

स्फैगचालिक- १स्फि- ३

स्फेगायनि- २स्फि- ३

स्फेजायनि- २स्फि- ३

स्फैजिक- १स्फि- ३

स्फेयकृत- स्वकृत- ३

स्फोटायन^०- नल पा ६, १, १२३स्फाय^०- स्फय वाशी १, ३, ३४, ४०,

भाष्य, स्फय भाषी १, ४,

१३, वाशी ४, ३, २, १४, २९,

काशी, स्फयस्य भाष्य, ३, १३,

६, ५, वीथी, स्फयत् भाषी २,

३, १, ९, वाशी १, ३, ४, ५,

वैथी, स्फये काशी ३ ६, १९,

भाष्य, २, १५, १४, ४, वीथी,

स्फयेन भाषी २, ६, ९, वाशी

४, ४, २, १४, ८, काशी, स्फयी

वीथी ५, ५ २०, ३३

स्फर कपाल- -लम् काशी २, ३,
८.

मैस्फय कृत- कृत. भाष्य, ४, ५, ५,

भाषी ४, ७, १, द्विथी ६, २ ४

स्फय(स्फ-अ)द^०- -म भाषी ९,
७, १६

स्फय ३मैमुष्टि- -धी वाशी ७, २, ५,

वाशी ३ २, ५

स्फय वत्- वे वैथी ५, १ ६,

द्विथी १, ६, १११

स्फय-दकार^०- र वीथी २०, २५.

७

स्फय-प्रक्षालन-प्रवृत्ति- -ति वाशी
१, ६, २, १३स्फय विवन्^०- नात् वीथी ७, ९ :

२१, २१, १४ ७, -यानाम्

a) ✓२स्फट इति BFG । ✓१स्फुट इति च पाठ । b) तु BFG । c) = इत्त दोष ।

d) वस । e) भाष, नाप (शौच) । f) पाषे ३ १३७० d द । g) वस > वस । h) व्यप ।

i) ✓स्फण्ट इति ✓स्फण्ट इति च [पठे] BFG । j) ✓स्फर इति केचित् । पा ६, १, ५४ पराण्ट ३ ।

k) या द्विधायां इति । l) या दीती इति । m) शौच २ १०२ पराण्ट ३ । n) वैप १ द. ।

o) शक-भाषित्व ३ । p) = मन्त्र विशेष- (<स्फय स्वस्तिर्विषय (ती ३, ४, १) इति ।

बौध्री १४, ८: ३६; २१, १४:
 ५; २२, ५: ५, २५, १९: ७,
 एक-द्वि-त्रि-चतु-पञ्च (ल-उ) ल-
 लल-ल्लाम् विध २३, ११.
 एक-संगार्थ^१-नाम् बाधौ १, ३, ४,
 १८.
 स्वयंस्वार्थ-पाणि^२-णि: माधौ
 १, ३, १, २५; २, ३, ७, १३; -णे:
 वैताधौ १, ६.
 एक-सुव^३-नाम् माधौ १, २, १, ५.
 एक-सुव-नाम्^३-भ्यम् कटधौ
 ७, पाठ ४६: ७.
 एक-द्वल^४-ल: बौधौ २४, ३४:
 १; १८; २५, ८: ९; १०: १९.
 स्व्या(स्व-आ)कृति^५-ति: द्विधौ
 २२, १, ९.
 स्व्याकृति-यूप-या: आपधौ
 १९, १६, १९.
 स्व्या(स्व-अ)प्र-प्र: काधौ २२,
 ३, ८; आपधौ २२, ३, ७;
 ४, १५; द्विधौ १७, १, ४५;
 ३, १८; २१; ताधौ ८, ७, ५;
 -मै बाधौ १, ३, २, ७.
 स्व्या(स्व-आ)द्विधा(न-आ)दि-
 दि बाधौ ५, ८, २४.
 स्व्या(स्व-आ)दि-दि बाधौ ५,
 ३, १५; ६, ३, २, ४; -द्विनि
 वैध ५, ४: ३९.
 स्व्या(स्व-आ)धाम-विस्तार^६-
 -रम् वैधौ ११, ८: ६.
 स्व्यो(स्व-उ)परि बौधौ १, ५: ८;
 २४, ३६: १३, २५, ३: ८x४.
 स्व्यो(स्व-उ)पवेध-वी विस् २,
 ६: २३; गोवि २, ७, २१.
 स्व्यो(स्व-उ)वर्तनद-द्वामि वैधौ

६, ४: ३.
 स्व्यो(स्व-उ)पदि(त>)वा-
 -तायाम् काधौ २, ३, २८.
 स्व्य-कपाल-प्रभु. स्व्य-द.
 स्व्यकृत^७-(>स्वैकृत^७-पा.) पाप
 ७, ३, ४.
 स्व्यप्र-प्रभु. स्व्य-द.
 स्व,>स्वा^८ बाधौ ५, ५, २१; बाधौ,
 बौधौ २५, २०: २१; पाप १,
 ४, ५७.
 स्व-स्वो पा ३, २, ११८; ३, १६५.
 स्वो(स्व-उ)तर-रे पा ३, ३, १०६.
 स्वर्-या ११, ४९.
 स्वर्-सुरभि^९-भिव: बाधौ ६,
 १४, १८.
 स्वयश: बौधौ २, ५: १२.
 स्वर्त-स्वृ द.
 स्वि पाप १, ४, ५७.
 स्वि^{१०} पापा. भा. आत्म. ईपदसने;
 सुरा. आत्म. अनादरे, स्वयते
 आपधौ १०, १३, ५; भाधौ
 १०, ८, ४; वैधौ; स्वयासै बौधौ
 ६, ६: २; ३; स्वयते भाधौ
 १०, ८, १०; द्विधौ १०, २,
 २२; पापध १, ७, ६; ७.
 स्वविध्या: बौधौ ६, ६: २.
 स्वप्नीवमा(य>)वा-वै या ८, ११
 स्ववन-भ्य वाए ३, १७; माए
 १, २, १९; वाए ९, १९.
 स्वप्नमा-वास: आपधौ १७,
 १८, १; वा ७, १७.
 स्वित-> स्व-पूर्वा(वै-घ)भिमा-
 दिव्-यो विध ३, ८९.
 स्वित्वा वृदे ४, ६०.
 स्वैर-पा ३, २, १६७.

स्मिद् पापा. सुरा. पर. अनादरे.
 स्मील् पापा. भा. पर. निमेषणे.
 स्मृ^{११} पापा. भा. पर. आघ्याने
 चिन्तायां च; स्ता. पर. प्रीति-
 पालनयो: प्रीतिचलनयोस्व,
 स्मरति वृदे ८, ८५; या १४,
 ६; स्मरन्ति बाधौ ३, २, १, १३;
 गौध १६, ५०^३; शपा; स्मरामि
 विध २९, ८; स्मरत पापा १, ४,
 ५१; स्मरेत् बाधौ २, १४, १५;
 आपधौ ९, १५, २३; बौधौ;
 स्मरेयु: बाधौ ९, २, ७.
 स्मर्यते आपध २, ४, २४; द्विध
 २, १, ७७; स्वर्ग्यते जैश्रीका
 ११८; आतिष्ठ २, ७, ९: १;
 भाए ३, १८१; कप ३, ७, १४.
 स्मारयति शुभ्र ४, १२८.
 स्मर^{१२}-रम् मं २: ६२.
 स्म-देवताक^{१३}-कवि अपध ६,
 १३२.
 स्मरण-णम् वाए ९, १९; मज
 ५, ७; वंध २५२.
 स्मरत्-रत् सु १८, ३; मर ५,
 ४८, ५.
 स्मर्तु-वार्त: शुभ्र १, ३.
 स्मृत्,वा-व: बौधौ २९, ८:
 १३; जैश्रीका; -रम् जैश्रीका
 ११; १४८; आपर्म २, ५, २१;
 भाए ३, ९, ११; आपध: -वा
 कीह ७३, १३; कप २, ७,
 ११; ३, ९, १०; अप, -ता:
 बौधौ २७, ४: ४; जैश्रीका
 १२२; कीह ३, ९, ५०; वर; -वे
 बाधौ ३, ६, ७, वृदे: -वौ
 आतिष्ठ २, ५, १: १०; वैध २,

a) समाहारे द्वय. b) वक्त. c) पक्ष.>द्वय. d) व्यप. e) <एट्-द्वि [पक्षे] भाव. f) वै १ द. g) वाच्य->तथा. वैताधौ २०, ४ प्ले इति पाठे. h) वा १, ३, ६८; ६, १, ५७ परासुष्ट: द. i) वीध २, १०२ वा १, ३, ५७; ७, ४, ९५ परासुष्ट: द.

१:५; कौश ७३, १९१; अण.
स्मृत्वा (त-म) गिनहोत्र->
प्रिद- ग्री अत्राण ४,२.
स्मृति- -तपः शेष २; -ति: वीथी
१९, १०: १११; शेष ३; आशप
२, १५, २५; द्विप २, १, ५९;
मोक्ष ७, १, १०; -द्विप वीथ २,
५, १; ६, ७१; शीष्ट २, ७, १६;
१०, ११; ४, ९, ३; वाष्ट ६, १३;
अण ४३, २, ४२; आशप २, १८,
४; द्विप २, ५, ५६; -ते: ताथी ६,
१, ६; १३; मोक्ष १२, ४, ४३; -ती
निम् २, १: १०; १४; वीथ १,
१०, ३७.
स्मार्त- -तः वीथ १, १, १;
-तम् शेष ५; -तानाम् शेष
४, १६०; -तं अण ३, ५, ३;
१, ५; -तं वाष्ट ७, ११; -तै:
वीथी २०, १: १.
स्मृति-प्रदान- -जानि द्विथी ३,
१, २.
स्मृति-धारक- -कः शेष १.
स्मृति-प्रयोजन- -नः शुभा ४,
१८२.
स्मृति-मद- -माम् वाष २९,
१.
स्मृति-रूपा (प-ज) न्यार्थ-द्वयान-
-नात् वीथ ६, ८, २५.
स्मृति-विद्योग- -नात् वीथि १,
१, २.
स्मृति-शील- -ते वीथ १, २.
स्मृति-संभव- -वी अण ११,

११.
स्मृत्पु(ति-ज)पदेत- -शाम्वात्
मोक्ष ९, २, १.
स्मृत्वा वाथी २५, ५, १५; मोषि.
स्मृत- प्रय. √स्मृ ६.
स्मृतीक- -कम् वा १४, ११.
स्मेर- √स्मि ६.
स्व- स्वप्- ६.
स्व- स्वप्, स्वात् वा ६, ९६.
स्व- -> स्वा(स्व-भा)दि- -दौ द्राथी
१, ३, २४.
√स्वन्(वधा.)^६ पाषा. भ्या. आत्म.
प्रहरणे, स्वन्दते अण ५२, १, ४;
९; १०; निप २, १४१; स्वन्दति
निप २, १४१; स्वन्दते वाथुथी
३, ६: १; द्विथी १३, ५, १४; अण
५९, १, ११; वा ६, २७; स्वन्द-
धम् अणाय १, ४१; स्वन्देत्
वाष्ट २, ७, ७.
सद- वा ६, ४, २८.
सन्वा वा ६, ४, २१.
स्वन्दत- -पाठ २, ७८; -नात्
वीथी २८, ११: ३; वा २,
२६.
स्वन्दमान, ना- -ना: काथी १५, ४,
२७; -नात् कौश ३०, १३;
-नाताम् काथी ८, ९, ६; १०,
६, २१५५; वा २०, ५; १४, १३;
-नावात् अण ५९, १, १.
स्वन्दित- -तम् वाष १७, ८; -ते
वीथी २७, ४: ८.
स्व(न्व) न्या- -न्यावा काथी

१३, ४, १५; -द्याभि: वाथी
१७, २, ९.
√स्वन्- -द्वासा: अण ४८, १०३;
निप २, ९.
स्वन्दन- (> स्वन्दन्-) स्वन्दन्-
टि. ६.
स्वन्दिनी- -> वी-यमस्-संधिनी-
-नीनाम् वीथ १७, २३.
स्वन्दिनी-संधिनी-विकला-झीर-
-रम् विप ५१, ४०.
√स्वाम् (वधा.)^६ पाषा. भ्या. पर.
अन्दे, तुरा. आत्म. वितर्के, स्वमति
निप २, १४१.
स्वामन- -नात् वा ३, २००.
स्वामिक- , स्वमोक- -पाठ ३, ४९.
स्वात्^६ पाषा १, ४, ५७.
स्वादिवावती^६ आणमं २, १५, ११.
स्वामूल- -तम् कापाथी ५, २९, २.
स्वाल- -पाठमो २, ३, ९०; -ला:
आश्रिय १, ७, १: ४; पैष्ट ५, ६:
६; वा ६, ९६, -पाठ वा ६,
९; अण ८, ३४.
स्वू-, स्वून्-, स्वूत्वा √स्वि ६.
स्वून्- -पाठ ३, ९.
स्वूम- -पाठ १, १४४.
√स्वूमक- -कम् अण ४८, ६४;
निप ३, ६.
स्वूमन्- -> श-शरिभ- -रिभ: अण
२, १०, ७७; -श्मे: वास
५: ३.
√स्वोत्, ना- -पाठमो २, १, १७८६;
-ना: कापाथी ४, ७, १२; १६.

a) भाष., पाष. (घर्ष-आत्म.) । b) इत्यर्थे अण् प्र. । c) वध. । d) उदकनामन् ।
e) = इति । f) य१ आदेशस्यानुकरणम् । g) वा १, ३, ६१, ९२, ३, १, ५५, ७, २, ५९ पराण्टः ६. । h) अन्ते
कर्त्तरि वा क्त् । i) = रज्जु- । j) इवा इति पाठः इ यनि. शोषः । k) वैत १ प्र. । l) = १७७- ।
m) = स्वयंस्वन्दवान्मुग्धा- गो- (इ. DDB.), निदान्तप्रन्धिरतनी- नो- इति माधवम् ? । n) वा ६, १, १९, ४,
१२५ पराण्टः ६. । o) वा. गती वृत्तिः । p) तु पाषा. । किनाप्रतिस्पर्धम् अन्व. । q) (√अस् 'भुवि' >)
स्वाः, हरावती इति शोषः (१ ६९ b पामे. यनि. विशेषः) । r) = वस्व-विशेष- । s) = कुक्ष- ।

५^०xx, बीथी १, १४ २३,
 २, १७ ३६^०xx, माथी,
 -नम् आपथी १, ७ १३, २
 १०, ६, ४ ५ ५, ५ १, ७,
 बीथी, आपथ १ ५, १६^०, निप
 ३, ६, -ना आथी ४, १२,
 २^०, ८ १४ १८, शाथी, वा ९
 ३२^०, -ना आपथी ४, १०,
 ४, १० ३०, १५, बीथी, -नात्
 कौत् १२, १२, १४, २, -नाति
 कौत् १२४, ५ -नात् काथी
 १५ ७, ३, आपथी १०, ६, ६,
 १८, १८, ७, बीथी, वाथी ३, ३,
 ३, १५^०, -नायाम् आपथी १६,
 २६, १२ वैथी १८, १८ १७,
 हिथी ११ ७, ५१, -नाथै कौत्
 ३९, ९ -ने^० शाथी १६ ३,
 आपथी ६, २९ १, हिथी ३, ८,
 १४^०, माप २, ४ १०, -नेन
 आपथी ४, १०, ४^०, १२, १०^०,
 माथी ४ १५, ३६, २०, १^०,
 हिथी ६, ३, २६, ४, २२^०
 स्योन हृत्- हृत् शाथी १ १२
 ५, बीथी ३, २९ १०, हिथी
 २ ३, २८
 स्योन द(एठ>)ण्डा- ण्डाम्
 माथी ६ २, ५ २४
 १ स्योनम वाप ३८ १
 स्योनास- पाळमोष्ट २ २, १४
 √स्त्रशु^० √सस(वधा) पापा
 भा आन भवसमन, सखे,

ससति निप २, १४^०, अखसत
 वाधूथी ४, ७९ २, ससेत्
 माप १, २२ १६
 खलोप्य बीथी ६, ३१ २०^०.
 सतिरस^०- स अथा ३, ४, १^०
 सनितस(एठ अ)ख^०- -खेन्य
 कौत् २७, २^०
 ससन- नम् आशि ८, २१, -ने
 गौथ १४, १६
 ससथिवा वाथी १, ६, ५ १०^०
 ससत्- स्तेपु बीध १, ५, १९
 सक्ति, की^०- कप आपथी ८, १३,
 ३, १०, ५, २, माथी, -किम्
 आपथी २२, १६, ७, माथी,
 -किपु काथी ५, १, १३, १७, १,
 १४, २३, १, २९, आपथी, -की
 बीथु १० १७, -की आणु
 ७ १, १३, ३, हिथु २, ५९,
 ४ ३५, -कीमाम् बीथु १०
 ८, ११. ४, २०. ५, -कीपु
 हिथी ५, ४, ७४^०, -नौ वैथी
 ९, ४ ६, -पयाम् काथी १६
 ८, २३, १८, १, १, आपथी
 सक्ति पार्थ- थयो बीथु ५ १९
 सक्ति-मा(व>)ती- तीम् वैथी
 ९, ४. २
 सक्ति हीन- नम् अप ३०^०, १, ८
 सक्त(कि अ)पच्छेद- दे बीथु
 २० ९
 सक्तचय^०- तय अथ ७ ११
 सक्तव^०- काम् कौत् ३९, १,

अप ३२, १, १४^०, ३३, ६, ११,
 अथा १९, २, अथ ८, ५^०
 सक्तमणि- -निम् अथ
 २, ११
 सक्त^०- थै आथी ४, ६, ३, काथी
 ५ १, १४, अथ २, १ ७३, धरे
 ६, १३४, -निपु काथी १२, २,
 २०
 सक्त अलङ्करण- प्रम् सतिम्-,
 निवथी- √सज् द
 √सज् पापा भा आत्म गती
 सज्- √सज् द
 सज्- ज कौत् ३३, ९, -नम् कौत्
 ३३, ७, -नेन कौत् ३३, १६
 सज्य- √सज् द
 √सज्, सज्जाति अप ४८, १९^०
 सज्यत्- √सज् द
 √सज्मा^० पाथा भा आत्म विधाते
 सज्व-, सज्व- प्रम् √सु द
 सज्तर^०- रम् काप ४, १८, ५ पाप
 ३, ३, ६, ९, -रे शाप ४, १८, १३,
 माप २, ७, २
 सज्त्^० पाप १, १, २७
 सज्कथ- सक्ति- द
 सज्सा- (> साक्षा प्रत्य-) साक्षा-
 टि द
 सज्जिक- √सज् द
 सज्जाम^०- म आपथी १९, २५ ८,
 बीथी १३, ३४ ९, अथ ११,
 ३(२), -ने काथी २०, ३, १३^०
 सज्व- प्रम् √सु द

०) वाप वैप १ स्योन^० तै ५ ७, २ ५ टि द । ०) वापे वैप १ स्योनम् तै १, १, १०, २ टि द ।
 ८) वापे वैप १ सुद्वय काठ २२ १४ टि द । ८) नम् इति पाठ १ यनि शोध । ८) वापे वैप १ शिथे
 शी १९ १४, १ टि द । ९) न इति पाठ १ यनि शोध (त आपथी) । ९) शोध- वैप १ ८९८ ८ टि द ।
 १०) वापे वैप १ शिथे वा २, १९ टि द । १) वस । १) तु अथ १ । १) वा गती इति । १) वैप १ द ।
 ११) पाठ १ (त एव आपथी ८, १६, ६ किपु) । १) = औपधि विशेष (त हरिल) । ०) पा १, ३, ९१, ९९,
 ३, १, ५५ पराष्ट द । १) = १ धातव । ०) वैथे इति इति पापम । १) वैप १ निर्दिष्टो यमादेश द ।
 १) वाप बीथी १५ ६ १४ सज्व इति पापे ।

स्त्रिं, पविष्य या १०, ४५, प्राप्ता १७, १३.

पविष्य- स्त्रिं: प्राप्ता १४, २९, १, तेषां १२, ८, भाति ५०.

स्त्रिं- मा अत्रा ३, ४, ११.

स्त्रिं पाथा दिवा पर गतिशोपख्यो, सौम्येषु आपथी १३, ९, १११

स्त्रिं पाथा, भ्वा पर गती, सन्ते अत्र ६८, २, ३२, शंघ ४४३, सत्रवि प्रापथी १९, ६, ५, वाधुभी, सन्ता: वाधुभी ४, ७८ ६, पृथक्पति काथी १७, ५, ७, प्रापथी १७, १८, १, कौथी, कौथ ३, १५, ४०, पृथक्पति प्रापथ २, ४, १३०, शंघ ३, १३, ३०, हिप, कौथ ४५, १४०, सवेण काथी २५, ९, १५, कौथी, सवेयु: अत्र ७१, १९, ५

पृथक्पति आपथी १६, १४, ५, काथी २, १, ५, २०, वैथी.

साम्यपति आपथी ४, १४, ३, ६, ५, ५, १२, १३, १, माथी, स्यावेण वैथ १, १० ७४४.

अत्र- अत्र अत्र ६४, ३, ५, -अत्र अत्र १, ३५, १.

अत्र- वा ३, १, १४९, पाग ५, २, ३६

अत्रकिं- वा ५, २, ३६

अत्र- गम् वीथि ३, ६, २०, -गम् वा ५, २७

अत्रणा(गा अ)थं- थं वैथी १९, ८, ७

अत्र- अत्र आथी ३, १०, ११, -अत्रा गो १, २, -अत्रात्

गुदे ५, ८६, ८, ६६, -अत्र अत्र ७०, ७, २, -अत्रन्तम्

आथी ३, १०, ३१०, काथी १५, १०, १९६, प्रापथी ९, ४, १०,

माथी ९, ५, २२०, वैथी २०, ९, ४०, हिथी १५, १, ७५, काथ ३३, २६

अत्रन्ती- अत्रन्ती आपथी १६, २७, ५, वैथी १८, १९ ८, -अन्ती

कौथ ५, ५, ६१, -अन्तीनाम् हिथी १३, ५, १४, अत्र, -अन्तीनि कौथ ४, १, १, पाग १, १६, ६,

-अन्तीम् कौथ ३, १३, १६, शंघ ४, १४, ४, गीम २०, १००,

-अन्तीरांशु १५, १५, ६, काथी, प्रापथी ९, १८, १२१०४४,

हिथी १५, ८, १२१०, -अन्तीपु वीथ २, ३, ४, -अन्त शशी १३, ५, २२, कौथ, निच १,

१३१, -अन्त्या अत्रथी १२४, -अन्त्याम् अत्र ४५, २, १९

अत्रन्त- अत्रन्ती- अन्त्या हिथी ८, ३, ४७

अत्रन्ति- अत्रन्ति-अन्त- अन्त या १, ९

अत्रन्ति- अत्र ४८, ७५१

अत्रन्ति- अत्र वीथी १५ ८ १४

अत्रन्ति- अत्र वीथी १, ६, १, ३०, वैथी ८, ७ ७, वैथ

अत्रन्ति(वा)अन्त्या- अन्त्या

प्रापथी १२, १३, ३, रात्रिपिप्या वैथ १, २०, १४४४,

वैथ साम्य वैथ ४, ४ १४ सुत- अत्र अत्र ८, ६,

अत्रन्ति- अत्रन्ति आथी ६, २, ६, सात्र १, ४५३, अत्रिम् ५ १७,

-अत्रि आपथी १०, १, ५, माथी १०, २, ४, हिथी ७, १, १३,

-अत्रिम् अत्रथी ७, ९, १, १७, १२, ४, -अत्रि वीथी १६, १३, १८, प्रापथी १९, ३, ५, कौथी १७, ३८ १, माथी, भाति २०

अत्रि शब्द- अत्र भाति २० सुत- पाठ १, ६३, पाग ३ ४,

७४, -अ. वीथी १, ३, ३३, ३९, प्रापथी, शंघ १, ९, १, -अत्र

प्रापथी २, ३, १०१०, शंघी, -अत्र आपथी २, २, ९, माथी २, ४, १, हिथी, -वा वाधुथी ३, ३४ ५, -वाणाम् अत्र २१, ३, ४, -वात् माथी २,

२, ४, १५, ३, १, ५, -वात् काथी ४, १४, १०, कौथी ३, ५ १२, १५, १४ ६, माथी,

-वाणाम् प्रापथी ३, ८, ६, कौथी ५, ७: ३, -वे काथी ३, ७, ११, १५ १, ८, २, ३, प्रापथी,

-वेऽ वे शंघी २, ८, १८, -वेण आथी १, ११, १०, २, ३, ५, शशी, -वे आपथी २०, १०, ५, कौथी १५, १९ १५, वाधुथी

a) वैथ १ द्र । b) वा १ ३, ८६, ३, १, ४८, ७, २, १३, ४, ८१ पावा ३, १, ८७ परात्त द । c) पामि वैथ १ अत्रन्तु मा ३५ २० टि द । d) अत्र इति द । e) पामि वैथ २ ३५ अत्र-अत्र तैत्रा ३, ७, २ ६ टि द । f) विप, नाप (नदी) । g) पामि द्र १७४२ टि द । h) अन्त्या इति सप्त-अत्र ३, १, २ ६ टि द । i) पामि द्र २७४४ ४ द । k) पामि वैथ १ सुतप कौ १, ५५३ टि द । l) पामि वैथ १ सुतप मा १२, ४७ टि द । m) अत्रन्ति-इति पाठ । n) अत्र कौथ १, ४, १० सुच इति पामि । o) सुचम् इति आत्र ।

३ ८३ य, वाथी, -वौ वाथी
४ १४ २२, काथी, आपथी १५,
१५ १^३.

सौथ^० -वम् आपथी ४, ९,
१, ८५, २८, ११, २, ६, माथी
१२ ३, ३, -वेण मीम् १०, ७,
४४

सुव-कर्म- पा ६, ३, ११५
सुव ग्रहण- -गम् धाथ ५,
१०, ४

सुव धमस- सौ धाथ ४, ३,
१०.

सुव-धमसे(स-र)धम- -धाम्
गोथ ४, १, २

सुव-वपस^० -यसाम् वाथ १५
४.

सुव सुण्ड^० - ष्ट विथ १, ४

सुव वृती(व >)वा^० -या
वाथी ८ १, २४, -ये माथी २,
३, १, १०, २८

सुव दण्ड- ष्टम् वीथी १,
१०, २९, -ण्डेस धाथी १,
१२, २४, वीथी १, १० २९

सुवदण्ड-माथ- ज वीथी
२४, २५ ३

सुव धर्म- मां माथी ७, ९, ९

सुव पञ्च(म >)मा^० - मा
माथी १, ५, ३, ८

सुव गाम्^० अथी २, ३, १२

सुव पञ्च-मा(ध >)त्रिका^०-
-वा का १ ९, ११

सुव प्रदा(न >)मा^० - नाम्
हिथी ७, ४, २०

सुव-सुम- भवे माथी ३, १,
२७, वीथी २०, ९ ४

सुव-धम् वैथी १०, ७ ८

सुव-वाव- -दम् माथी ९, ८, २

सुव-स्वधिथि- -ती माथी ७,
७, ९, वैथी १०, ७ ९, हिथी
४, २, २७

सुव होम- मौ लाथी १०,
१८, २

सुव(व अ)म- -मे वथ १, ८,
१३

सुवा(व-आ)वार- र. काथी
१६, १, २५, -रम् काथी ८, २
२९, माथी ४ १२, ८x, वाथी

सुवा(व आ)दि- -दीन् वैथी
२, ६ ८, वैथ १, १० ३,
-दीनि वैथ ५, ५ १

सुवा(व अ)नन्तर- रम् वैथी
१०, ७ ८

सुवा(व-अ)थं- थंम् अप २३,
४, २

सुवा(व-अ)थं- -थंम् माथी १,
६, १, ५२^२

सुवा(व-आ)द्वि, ती- -तथ.
वैथी २०, ९, ३, -ति वीथी
१४, २१ ३६, -तिभि वीथी
१०, २४ : १६, ५२ ३१x, x,

-तिम् काथी १०, ९, १०,
आपथी २, १३, १५, वीथी, -ती
काथी १७ ५, ५, १८, ३८, ४,
८, वीथी, -ती काथी १४, ५,
१, १८, ६, २९, आपथी ९,
१९, १७, वीथी, -त्य वीथी
२५, २१ १७, ३४ ४, -त्या
वीथी ४, ४ १६, ७ ५x, x,

-नया वीथी २९, २ १५,
-त्यो वीथी २२, १० ३

सु^० - पाठ २, ५७

स्रोतस् (वपा)^० - पाठ ४, २०२,
-त. हिथी ३, ७, ४१, निथ १,
१२^१, -या ५, २७^१, ६, १,
-तसा अप ६८, २, ५०, -तसाम्
वथ ३, १०, १, माथि ४, १५,
-तसि अप ६८, २, ५०, -तसि
गोथ ३, १०, २७, वैथ १, २२
२४^१, दाथ ३ ४, ८^१, वा ५,
२७

स्रोतस्व- वा ४, ५, ११३

स्रोत्व, व्या^० - पा ४, ४, ११३,
-न्या अप ४८, ७६, निथ १,
१३, -न्यानाम् पाथ १, ५,
१०, वात्रिथ १, ५, २ २९,
वैथ १, १७ ८

सुम् - म पावा ८ ४, २

सुव^० - पाठ २, ६२, वाम ३ ४, ७४,
५, १, २^१, सुम् आथी ८, १३, ९,
काथी, आपथी १२, २, ७, सुधु
आपथी ३, ५, ९, वीथी १,
१९, १९x, माथी, १सुम्
वीथी १, १३ ७, वैथ १, १०
३, सुगवाम् आपथी ३, ८, ६,
वीथी, सुव वाथी २, ९ ६, काथी
१, ३ ३८, २ ६, २६^१, ४१x, x,
आपथी, वैताथी १६ १७^१,
वीथ १ ४, १०^१, सुचम् आथी
१, ४, ११, २, ३, १५, वाथी,
सुवा आथी २ ४, १२, वाथी
२, ८, १६, ३ १८, १५ आपथी,
सुचाम् आपथी ७, ८, ६, १२, ३,
६x, वीथी, सुचि आथी २,
३, २०, वाथी २, ९, ५, वाथी
३, ७, ११x, आपथी, सुचो

a) तप हिथी २४ ६, १२ सुची इति पामे । b) तरेदमीय जन् प्र । c) वस । d) वप
नमुत्तम् । e) नाप (वपवदादिति) । f) सु- इति पाठदु २, २३ । g) वैप १ १ । h) = १३२४-१
i) १२१९७] १ । j) १ १०-३० । k) पामे वैप १, १५७१] १ । l) पामे १ २७४५] १ ।

काथी ६, ८, ८, २६, ४, १०,
 कापथी ७, २४, ८×४, वीथी,
 सुचो काथी १, ४, ९, राथी १,
 ६, १६, ४, ९, ५×५, काथी,
 हिथी २४, ६, १२°.
 सौच^० - च माथी २, २, १,
 २३, -चम् माथी १, ७, ४, ३८,
 ५, ३३, ८, ३, १२, ६, १, ३, ५,
 वाथी १, १, २, ३०, ६, ४,
 १९, -चे माथी १, ४, १, २३.
 सुक्पालेऽसुदुसे^० माथी ४, २, ६
 सुक्पद - दे माशि २१
 सुक्पालि^० - लि वाथी ५, ५,
 १४, वाथी १, ७, २, ३५
 सुक्पात्र - त्रेण वाथी २, २, ४, २
 सुक्पात्र-भात्र - प्रम् काठो
 ११७
 सुक्पात्र-रूप^० - ने वाठथी
 ११६°.
 सुक् पुष्कर - > पा (र-आ)
 कृति^० - ती काथी ९, २, १३°,
 २६, १, २१
 सुक् पुष्कर (>) रा^० - राम् काथी
 ९, २, १५,
 सुक् प्राप्तन - नम् काथी १८, ५,
 २
 सुक्शुपं - पम् सुभ १, ३२
 सुक् शेष - पम् वेताथी ७, २१
 सुक्स्मावेन - नम् आपथी २,
 ४, १, -ननाम् वीथी २०, १०
 ५ - नानि आपथी २, ४, ११,
 वीथी १ १२ १५, वेथी ५
 ३० १
 सुक् स्याली - रथी काथी ८, ३,
 ३०

सुक् सुव - नम् काथी २, ३, ९,
 काथी ३, ६, २, ७, १४×५,
 कापथी, -वाणाम् सुप ८७
 १६, -वी माथी १, ६, १, २५,
 ७, ४, २४, साथी.
 सुक्सुव-संसारं - नं वाथी
 १, १, १, २६
 सुक् सुवा (न-आ) म्यस्यासु (ली-उ)
 दपाया (त्र-म) लकार - नान् रूप
 १३, १, १०, २, ३, ४, ७
 सुग् अम - त्रेण वेथी ८, ६ १०.
 सुग्-अभिघारणा (ण-झ) भाव -
 नरव मीद् ८, १, ६
 सुग्-अवधान - नम् हिथी १०, ५,
 ३९
 सुग्-आदान - नम् वीथी २५,
 ३१ १
 सुग्-आदान-प्रभृति - तय आपथी
 ९, १५, ११, माथी
 सुग्-आदापन - नम् काथी ३, २,
 १६, -ने काथी १, ४, ४, हिथी
 २१, १, १६, -नेन वाथी ५
 ११, ५, वीथी ३, २८ १६
 सुग्-आदापना (न-आ) दि - दि
 वाथी १, १४, २१
 सुग् मादि - दीनि वेथी १४,
 १४ ४
 सुग्-आपादत - नान् वेथी २०,
 ३० ३
 सुग्-उद्यमन निपातन - नवो
 पावा ३, ३, ३६
 सुग्-उपधान - नम् काथी १७, ४,
 ११
 सुग् रात - नम् आपथी ९ १३, ४,
 वीथी २०, २० ९२, माथी,

-तानि वीथी २०, २० ९^२
 सुग्-दण्ड - नम् आपथी ११,
 १६, १५, वेताथी ७, २४, रूप,
 -पडा काठथी ७, काण्ड ४६
 ४, -पडान् वीथी १७, ३५ १,
 २३, १६ ११, माथी, -पटे
 वीथी ३, ५ १७, ६, १२
 ७×५, माथी
 सुग्-दण्ड^{११४} - पट आपथी
 १, ३, १७^०
 सुग्-दण्ड-मात्रं - त्र वीथी २४,
 २५ २, माथी १, ३, १७, -त्रम्
 हिथी १, २, ३७^०.
 सुग्-डण्डो (एट-उ) पनियमन -
 नान् आपथी १३, ५, ६
 सुग्-नत् - > सौमत् - तम्
 काथी ७, १, १
 सुग्-प्युहत् - नम् काथी ६, ९,
 १३, १०, ७, १३१, -नात् काथी
 ५२, २२, १४ २, २१
 सुग्-प्युहना (न-आ) दि - दि
 वेथी १०, २१ १२
 सुग्-सत्र - न्ना वीथी २१, १६,
 ५
 सुग्-सुभ - छात् आपथी ६, १०,
 १०, -सेन आपथी २, २०, ४
 सुच्य - वा ५, १ २, -च्यम् आपथी
 २, १९ ९, ४, ९ ५, ७, १४,
 १×५, वीथी, -च्यत् माथी
 ८ १४, ४, -च्ये काथी २५ ५,
 २०, -नवी वाथी २, १०, ५,
 वीथी ५८ ८
 सुच^० -
 सुत^०, सुति^०, सुव^० - प्रर, सू-
 √सुद्

a) पामे वृ २०४६ अ द । b) तस्मिन्मयी अण् प्र । c) पाठः सुचो, कणाले, मनुदुसे इति षोड
 (वृ द्वितीयं सुतम्, काथी २६, २, १२ १४, सरकृष्टं टि च) । d) वस । e) परस्पर पामे । f) विप (पस्तर-)
 ४) मात्रच प्र सुक् । h) परस्पर पामे । i) व्यप । j) = साम विरोध- । k) वृ २०४५ म द ।

५, २, १४, २२; वैथी ६, ५: ९;
 माण १, २३, २; वाण ७, २;
 -संभिः विप १६, १७; -संसु
 गीष १२, २; १७, १.
 स्वर्गमै-स्व- -स्वात् मीस् १०,
 २, ३२.
 स्वकर्म-नि(डा>)ञ- -प्याः
 गीष ११, ११.
 स्वकर्म-प्रतिपत्ति- -त्तिः शंष
 ३२९.
 स्वकर्म-भास्- -स्व- -स्वात् मीस्
 ४, २, ३.
 स्वकर्म-रथ- -स्थाः वीष १, २,
 १९; -स्वात् गीषि २, २, ११.
 स्वकर्म(र्भ-अ)न्त- -न्तम् वैपृ
 ३, १९: ८^b.
 स्व-कर्मन्- -र्मागः अण ५७, ४,
 ५.
 स्व-कामिन्- -मी वीथी ९, १८ :
 १४; द्विष्ट १, १७, १.
 स्व-कार्य-दक्ष- -क्षे विप २९, २०.
 स्व-काल- -लम् आगिण २, ७,
 १०: १५; -स्वात् कण ३, ६,
 १७; -ले द्विषी ५, ६, ४^c; कण
 ३, ८, ७; मीस् ४, ३, ३९; ५, ४,
 १५.
 स्वकाल-विधात- -नाश् आपथी
 २४, २, ३६.
 स्व-काल, छा- -लापा वैथी ९, १२:
 १४^c; -लाः आपथी ५, ११, १३;
 १५, १, ३०; -लानि आपथी १८,
 ८, ८; द्विषी १३, ३, ८; -ले:
 आपथी ८, २२, ४.
 स्वकाल-व्य- -व्यम् मीस् १०,

२, २०; -स्वात् मीस् ३, ६, १५;
 ७, ३९; ४, ४, १९; ११, ३, २.
 स्व-किल्बिष-> प्या(व-अ)तानि-
 भूत-संपात-भृगुपतन-महोवपरि-
 सर्पण-महाध्वगमत-प्रवास-दुर्गा-
 व्याधुपेक्षा-रथधेप्रायोपदेशान-
 -नेपु वैपृ ५, ११: ४.
 स्व-कूल- -स्वात् अण ७०¹, ११, १६.
 स्व-कृत- -लम् वीथी १०, २२: ११;
 १२, १: १५; ४: १२; वैपृ २,
 ५: २; -स्वात् अण २०, ७,
 ४; -ने आपथी ५, २५, ९;
 १४, १३, १४x४; वीथी.
 स्व-कोश- -स्वात् विप ३, ६७.
 स्व-क्षय- -क्षे माथी १, ६, ३, ३^{१०}.
 स्व-क्षेत्र- -क्षे वाष १७, १३.
 स्व-गत- -क्षे वीथी १५, २०: १५.
 स्व-नाभं-सत्क्रियत्(या-अ)थं-
 -थान् कण २, ९, १७^१.
 स्व-गुण-वक्षि(पा>)ण- -ओ
 काथी १५, ९, १२
 स्व-मू(र्त>)र्ता- -र्ताः वा १०,
 ४७^१३^१.
 स्व-गृह- -हम् आगिण ३, १२, १:
 २१; २८; वैपृ ६, १४: ६; -स्वात्
 वैथीका २११; -हे आगिण २,
 ५, ४: ३; वैपृ.
 स्व-गृह- -स्वाणम् वाष ११, ७.
 स्व-गोह- -हम् आगिण २, ४, ७:
 १६.
 स्व-गोत्रा(त्र-आ)दि-ससर्षि-
 -र्षिन् वैपृ १, ४: १४.
 स्व-गुरु-पर-चक्र- -नेभ्यः अण ६४,
 १०, ५.

स्व-चतुर्थ- -र्थेन काण २, १३.
 स्व-चमस- -सम् वैथीका १८७;
 -से वैथी १५, १७: १२.
 स्व-चन्द्र- -न्द्राय वाष २०, ४, १^१.
 स्व-चन्द्र-वृ(त्त>)त्त- -त्ता
 नाधि २, ६, १.
 स्व-चन्द्र- -न्ः निम् ६, ६: १३;
 ८, ९: २७.
 स्व-अहर- -रे वा ४, ८^१.
 स्व-जन- -पाण ७, ३, ७^१; -न्म् शंष
 ११६: ५५^१; -स्वात् वैथी २०,
 २३: ६; -ने काथी २५, ४,
 १५; -ने: अण ६८, २, ४२.
 स्वात्मिक- -पा ७, ३, ७.
 स्व-जनस्वार्थ- -र्थे वाष १६,
 ३७^२.
 स्व-जसन्- -ज्म वृदे ४, १०.
 स्व-जाप- -जाः आपथी १०,
 २६, १५; माथी.
 स्व-जाति-> ज्तीय, या- -याः
 शंष ६४; -थैः वैष ३, १४, ८.
 स्व-तन्त्र-स्त्रा- -स्त्रः निम् ५, ११ :
 २०; पा, पावा १, ४, ५४;
 -न्त्रम् निम् ९, २: ८; -न्त्रस्य
 काथी ८, १, १६; पावा २, ४,
 ५४; -न्त्रा कण ३, ४, ८; -न्त्राः
 काथी ९, १९, १४; निम् ५,
 ११: १८x४; वैपृ १, १: ६,
 -स्त्रात् निम् ९, १: ५३; -न्त्रे
 काथी ९, ७, १.
 स्वातन्त्र्य- -न्त्रम् काथी
 १०, ३, ५; निम् ८, ८: १७;
 वाष ५, ३x४; -न्त्रस्य पावा ३,
 १, ८७; -स्त्रात् पावा १, ४, ५४.

a) वस. । b) 'न्तं प्रकाशम्' > 'न्त्रप्र' इति 0. । c) सपा. स्वकाळे <> स्वकालया इति पाठे. ।
 d) उप. <√क्षि (निवासे) । e) पाठे. वैष २, ३३. सुशयः तैसा २, ५, ८, ८ टि. द. । f) स्वर्गवासिक
 इति अस्य. ? । g) पस. > वस. उप. = २दक्षिणा- । h) वैष १ द. । i) तु. पाठम्. । j) = वादस-
 नान्यवत- । k) स्वजनस्वार्थे इति BOb. शोषः ।
 वैष ४-८=०

स्वतन्त्र-त्व- -त्वात् पावा १,४, ५५.
 स्वतन्त्र-परतन्त्र-त्व- -त्वम् पावा १,४,५५; -त्वात् पावा १,४,२३.
 स्वतन्त्र-प्रतिषेध- -घः मीत् १२,१,७.
 स्वतन्त्र-प्रयोगकत्व- -त्वात् पावा ३,१,२६.
 स्व-वस- -वसः औधौ १२, १० : १३, २७.
 स्व-वस- -वस्यः शाधौ ३, १३, ९; काधौ ५, १, ११; आपधौ ८, ११, २२, ४४; औधौ; -वसः आधौ २, १६, १०; -व-वसः आधौ २, १६, ११^०; माधौ ५, १, ८, ११^०; -वसे निम् ९, ३ : ३३^०; -व-वान् आपधौ १७, १६, १८; वैधौ; पा ७, १, ८३; ८, ३, ११.
 स्वातवस- -सः आपधौ २२, ८, १८.
 स्व-वस- (१) वैध १, १३ : १.
 स्व-वृषीण, पा- -वम् शैति २६१; २७१; -वान् शैति २५९; -वाण्यः वाधौ १०, १, १२.
 स्व-वेजस- -जाता जप ६९, १, ४.
 स्व-व्य- -व्यस्य मीत् ११, ४, ३५.
 स्व-दान- -ने मीत् ६, ७, १.
 स्व-दार- -रात् शंध ३७८; -रेषु ४५ २, १०, १; वाय १२, २१.
 स्वदार-गर्मा (मि-घ)र्मा- -धम् शै ८, ८३.

स्वदार-गामिन्- -मी कौष्ट ३, ११, ४८; शाष्ट ४, ११, १७.
 स्वदार-गुष्ट- -ष्टे विध ९९, १९.
 स्वदार-निधम- -मः शंध ३२९.
 स्वदार-वृत्ति- -त्तिः मीध १०, ५५.
 स्व-देव- -वम् श्रय १, १.
 स्व-देश- -रात् विध ५, ३; -वान् आपधौ २०, १५, १२.
 स्वदेश-पण्य- -त्वात् विध ३, २९.
 स्वदेश-राजन्- -जनि विध २२, ४५.
 स्व-शोभो(व-उ)पहता(त-आ)दि- -दयः शंध २५१.
 स्व-शोह- -ने मीत् ११, १, १९^०.
 स्व-द्वित्व- -वम् शैति ३२२.
 स्व-धर्मा- पाण ५, १, १२४; -मीः वाध २, १७, १९, १; -मैम् माधौ ६, १५, १२; विध ३, ९४; -मै वाध १९, ७; वापध १, १८, १३; औध २, १०, ५; द्विध १, ५, ८२; मीत् ११, ३, १८.
 स्वाधर्म्य- पा ५, १, १२४; -र्म्यम् आपधौ १९, २१, १६^०.
 स्वाधर्म्य-भूयसत्व- -रावात् द्विधौ २२, ४, ६.
 स्वधर्म-प्रत्युत- -ते अप ७०, १, ८.
 स्वधर्म-युक्त- -कम् आपध २, ६, ५; द्विध २, ५.
 स्वधर्मा(मि-घ)नुपविन्- -विनाम्

वैध २, १५, ८.
 स्वधर्मा(मि-घ)नुष्ठान- -न्म् द्विध २, १, २५^०; -ने आपध २, २, ३; द्विध २, १, २४.
 स्व-धर्मन्- -र्मा मीत् ९, ४, ३९; १२, ३, ४. -माणः द्विधौ ३, ८, ४०; -माणि द्विधौ ३, ८, २८.
 स्व-धिगण्य- -वम् वाधूधौ ४, ६२; ४; ७; ९.
 स्व-धृति- -त्तिः आधौ ८, १३, १^०; आपधौ; शाधौ ९, ४, २२^०; वैताधौ ३३, २९; कौष्ट ३, ९, २^०; भाय २, २९ : ६^०; वैष्ट १, २२ : १०; ११; -तिम् आपिष्ट १, ४, १ : १९; -ती आपधौ ४, ६, ५; भाधौ ४, ९, ३; द्विधौ ६, २, १६.
 स्व-नक्षत्र- -ने अप ६७, ६, १.
 स्व-नाम-शोध- -नाग्याम् विध ६७, २३.
 स्व-नामन्- -म वैध २, १०, ६; मीध ६, ५.
 स्व-निलय- -यम् वृद्धे ३, १४२.
 स्व-निवसन- -नेषु अप ३, ३, ७.
 स्व-निद्विष- -नाम् विध ३, ६४; -तात् विध ३, ६३.
 स्व-नक्ष- -ने शंध २४६.
 स्व-रति- -पाण ७, ३, ७^०; -रतिः आधौ ७, ९, ३; वैताधौ ३३, २०; ३८, ५.
 स्वापठेय- पा ४, ४, १०४; ७, ३, ७.
 स्व-पत्ति(त-उ)स्थान- -ने अप

a) वध. 1 b) पामे. वैध १ स्वतवसः ऋ ७, ५९, ११ टि. द. 1 c) वैध १ द. 1 d) पामे. वैध १ गुडगु-> -०नयः तै २, ३, ३ टि. द. 1 e) साधर्म्येदेवतीमः जणु प्र. 1 f) संदोह इति कीर्त. प्रयास. 1 g) परस्परं पामे. 1 h) साधर्म्य इति संस्कृतः टि. 1 i) वरा. आपध २, २, ३ धर्मानुष्ठानम् इति पामे. 1 वृ १२५७ द्विध. निर्देशो देहः 1 j) पामे. वैध १ द्विपतिः तै ७, १, १२, १ टि. द. 1 k) = १चतु-पति- (वैध १ द. 1).

७०^३, ८, ५.
 स्व-यम्- -ययः कौत् ७७, ६१.
 स्व-यय- -यात् द्विष्ट २, २, २१^०.
 स्व-पाठ- -ठः माथी ५, १, ६, २१.
 स्व-पितृ- -न्वयः कय २, १, २२.
 स्व-पितृ-विज्ञा(त-प्र)नुहरण-
 -न्वय विध १६, १६.
 स्व-पुण्य-वतुर्था(धे-श्री)व- -दाः
 वैध ३, २, ४.
 स्व-पोषम् पा ३, ४, ४०.
 स्व-प्रतिप(ध>)दा- -दाम् विध
 ६, ३.
 स्व-प्रघात^०- -माः वीथी २, ३, १२.
 स्व-यल- -लेन वृदे ६, १११.
 स्व-वान्धव- -वैः विध २०, १५.
 स्व-वाहु-वीर्य- -वैण वृदे ७, ५२.
 स्व-व्याकरण-मत- -नेन जैश्रीका ३६.
 स्व-मह- -क्षः आपथी १०, १०,
 ६; द्विथी १०, २, ५५.
 स्व-भक्ति- -निम् वीथीका ३६;
 लाथी ७, १०, २०.
 स्व-भर्तृ-विण्ट-मात्रा- -प्राभयः कय
 २, ७, ११^०.
 स्व-भ्रातृ^०- -जवः वीथी ५, १५ :
 १३; -नये आथी २, ११, १४.
 स्व-भार्या- -र्याम् वैध ३, १, ५;
 -र्यायाम् वैष्ट ६, २ : १.
 स्व-भार्या-जित- -तात् कय
 २, ७२ : ४.
 स्व-भाष- -पाग ५, १, १२४; -वः
 उनिम् १ : १४; -यम् माथि
 १४, १०; -यात् वृदे ८, ३१;
 -वैषु निव ८५, ५५.
 स्व-भाषिण- -कः आपथी

१३, १; -कम् आपथ १, ३०,
 ११; द्विध १, ८, ११; पावा १,
 २, ६४; २, २, २१.
 स्वाभाव्य- -पा ५, १, १२४.
 स्वभाव-तम् (ः) अय ७१, १४,
 ५; वैधि २००.
 स्वभाव-विकृति- -तौ विध ८,
 १८.
 स्वभाव-सिद्धत्व- -त्वात् पावा
 १, १, ५०; २, १, १; ७, १, १६.
 स्वभावो(व-उ)पनीत- > ज-
 ललितपदाक्षर-गुण-सगृह^०-
 -दम् नाथि १, ३, १०.
 स्व-भू^०- -भूः आपथी १०, २६,
 १५; आथी १०, १८, १; द्विथी.
 स्व-भूति^०- -भूते^० आथी ५, १८,
 ५; वीथी ८, ३, १०; वीथी.
 स्व-भूमि-पाल- -कः अय ७०^३,
 ११, १४.
 स्व-मांस- -सम् विध ५१, ७५.
 स्व-माया- -यया वृदे ७, १५०.
 स्व-मुहा(दा-श)द्विष्- -तम् विध
 ३, ८२.
 स्व-सूक्ष्म- -धि वैध २, २, ३.
 स्व-स्यत्रा^०- -त्राः आपथी १६, ७,
 ४; वैथी १८, ५ : ३; द्विथी
 ११, २, ३; वा ८, १५.
 स्व-स्यत्रात्-तर- -रम् वीथी १०,
 ३, १२; ८, १२; आपथी ६,
 २२, १.
 स्व-याया-प्रदान^०- -त्व- -त्वात्
 मीम् ११, ४, ३४.
 स्व-यूय-> ष्य- -य्याः वृदे ७,
 २८.

स्व-योनि- -निम् मात् २, १५,
 ५१^०; -निषु कौत् १७१, १७;
 -नौ शोधौ ११, १३, ३२; १४,
 ५; २३; मीम् १०, ४, ४३.
 स्वयोनि-कात्- -माः निम् ५,
 ६ : १६.
 स्वयोम्य(नि-श)भोवर्त- -तैः
 शोधौ ८, १, २४; लाथी ४, ५,
 २०.
 स्वयोम्य(नि-श)साम- -सम् निम्
 १, १३ : २३.
 स्वयोम्य(नि-श)वत्- -यम्
 निम् ७, २ : ८; ८, ६ : ३६.
 स्व-योनि^०- -नि छम् ३, १ : १५;
 निम् ५, ७ : ३०; -ययः निम्
 ७, ३ : ३१; -विः निम् २, १२ :
 ३७; ८, ४ : १०; ९ : ३०; ९, १ :
 ११; -निवी^० शोधौ ८, २, ११;
 लाथी ४, ६, १५; -निम् निम्
 २, १२ : ३७^३; -नीवि निम् २,
 ११ : ६; ७, २ : ९; ८, ६ : ६^३.
 स्व-यजन-काम- -गः अय १९,
 ७२.
 स्व-यय- -यम् वीथी ११, ६ : ३२; १२,
 ७ : ४४xx; वीष्ट १, ५, ३; -यस
 वीथी १४, १७ : २; -यात् वीथी
 १५, २४ : १७; -धे वीथी १५,
 २४ : १.
 स्व-यसि- -यसिमा वृदे २, ६२.
 स्व-यत्(व्या.)^०- -नाट, ल् लाथी
 ३, १२, २३^३; वीथी ८, १७, २;
 १८, १५, ५; आथी; निम् १, ५ :
 १८; अय १-२, ३xx; जया
 १७, ५; उनिम् २ : ६xx;

a) पागे. इ २०२७ मा द. । b) वस. । c) आयाच इति संस्कृतुः द्वि. । d) वैष १ द. ।
 e) कय > यय. > यय. । f) = स्व-भूति- (वै १ द.) । g) पागे. वै १ सुहृते शौ ७, ४, १ द्वि. द. ।
 h) पागे वैष १ सुहृ मे १, ३, ३८ द्वि. द. । i) = साम-विशेष- इति BW.MV. ? । j) पाठ ? *नि इति शोधः ।
 k) योति इति पाठः ? यनि. शोधः । l) नाप. (एकाह-विशेष, इष्टान-विशेष-) ।

-राज शाश्री १८, १९, ६१,
शाश्री, वृदे ८, १०७, शुभ ४,
१४२, श्रमा १७, ३, -राजम्
शाश्री १४, २६, १, यौश्री १०,
४४ १३, १५१, -राजा आपश्री
२२, १०, २१, हिश्री १७, ५,
१, निष्

१स्वाराज्यम् - ज्यम् शाश्री
१४, २६, १, ४, ३०, १४४,
हिश्री, वा १२, ३४, -पुंज्यज्य
शाश्री १७, १६, २, द्राश्री १०,
४, ९, लाश्री ३, १२, ८, -पुंज्येन
आपश्री २०, २०, ३, २२, १२,
२०, यौश्री

स्वाराज्य काम- मा
शाश्री १४, २६, १, आपश्री
२२, १२, १७, १८, ४, हिश्री,
-मस्य वैताश्री ४३, ३७, ४०
स्वराद् विप(म>)मा- मा,
अथ २, १९

स्वराज्य- पाप ५, १, १२४८,
-पुंज्यम् यौश्री १७, ४१ २०,
आश्रित १, ३, ४ १४, भाप २,
२१, २०, हिप १, ११, १
स्वराज्य- पा ५ १, १२४

स्वराज्य- जान लाश्री ८, ७, ४,
९४, २२२, -जानम् माश्री ५,
१, १०, २२१, -पुंजे आपश्री
२०, १५, ५, यौश्री

पुंस्व-राज्य- ज्यम् आपश्री ६,
२२, १, वा १२, ३४.

१स्व-राज्य- ज्ये विप ३, १६
स्वराज्य परराज्य- ज्यो विप
३ ३५

स्वराज्य-विवृद्धि- ज्ये अथ
२, २, ५

स्वराज्य-सेद- दम् अथ ७०^३,
८, २

२स्व रा(ज्य >)ज्य- ज्यः
अथान ६, २१^६.

स्वरूप- ज्यम् आपश्री १६, ११,
१११, वैश्री १८, १, १३१, अथ
७०^३, १, २, -वेण याशि २, ९७
स्वरूप ग्रहण- ज्ये पावा ७, २,
११४

स्व रूपक- क अथ ७०^३, १७, ५
स्व रेणु- गुमि अथ ७०^३, ११,
१७

स्व(स)स(स)ज्य- ज्यो अथ ६४, १०, १
स्व लिखित- ताम् विप ६, २६

स्व बंध- ज्यम् कौश १३५, ९^१.
स्व वेदप- ज्यपाद् विप ३, ८७,
-ज्यपानाम् पाथ ११, २३, विप
६४, ३२

स्व-जस्य- ज्यो अथ ५, ७२
स्व वचन- नाम् पावा २, १, ९
स्व वत् गौष १२, २५

स्व वत्- यतो मीश ६, १, १७,
-जान् यौश्री १४, २, १७, वा
६, १२

स्ववत् ता- ताम् मीश ६, १,
१६^३

स्व वध- धाय अथ ३, ३, ४
स्व वंश- ज्यो गौष २८, १७, -ज्यो
शैति ६१

स्ववर्ग पद्यम- मा शैति २७९
स्ववर्गीय- ज्यम् हिश्री २१, २,
३३, -वे शुभा ४, ११७, -वेण

याशि २, ३४
स्ववर्ग्य- ज्यम् आपश्री १, २,
१६.

स्व-वश- ज्याय अथ ३, २५
स्ववशि(र>)जी- जी निष्
१, ५: १८, श्रमा १७, ५

स्व वाचय- ज्येन वृदे २, ५९
स्व वास->पुंस्वि(र>)जी- जीम्
विप ६७, ३१^७.

स्व विग्रह- ज्यम् गौष ४, ५, २
स्व वि-स्वन्दस्- ज्य सु लाश्री ६,
१, २

स्व-विष्ठा(त-अ)नुरूप- ज्येण
विप १५, ३१

स्व-विधान-प्रकृति- ति माश्री
४, १, १

स्व विवाह- ज्यम् श्रम २, १०, ८५,
अथ १४, १

स्व-विपवा(य-आ)प्राव- ज्य
शथ २५१.

स्व-वीर्य- ज्यम् सु २७, २
पुंस्व-वृक्ति- रिकमि आपश्री ७,
११, ८, १४^३, १७^३, ताश्री

स्व वृत्- वृत्, -वृत्तम्, -वृत्ते
वैताश्री २६ ८^१

स्व-वृत्तु(ति-उ)पार्जित- ज्यम्
विप ५८, ६

स्व वेद्यम्- ज्यमि विप २२, ४६.
स्व शक्ति-ज्यम् () कौश ४, १, १,
अथ २, १०, ५ विप २०, १०.

१स्व शब्द- ज्यम् मीश ११, १,
१६^३, -ज्यम् आपश्री २४, ३, १,
मीश ५ १, ६, -ज्यम् मीश ६,
४, ४९, -ज्येन अथ २, ३, २८,

a) मांवे व्यम् प्र । b) व्यु पांवे च वृ १५१२ a, b द । c) स्वम् इति पाणम । d) वैप १ द ।
e) वस इति भाष्यम् । f) वस । g) सप्त तै २ ४, ७, २ सुराज्य इति पांवे । h) ठप = २वठ-1
i) स्व व इति web (द्व सस्कृत टि.) । j) द्व जीस । k) = छद्यो विशेष । l) = नवोद्य-वधू-1
m) श्री इति मयु [३, ११४], मुवास्मिनीम् इति जीव । n) वस > वस ।

पावा २, २, २९.
 १स्व शब्द^१- व्दानि माधौ ५, २,
 ९, २.
 स्वशब्द १- -व्वात् मीत् ५,
 १, १५.
 १स्व-भाव- -या मात् २, ७, ४.
 स्व-गरीर- -रे अय ७१, १८, २,
 -रेण श्चे ४, ११७
 स्वशरीरो(र-उ)त्य^२- -रथै कप्र
 ३, ३, ७.
 स्व-गारा- -स्तावाम् कप्र १, ३, ३,
 वाप ६२, २, २.
 स्वसाखा(खा-श)ष्वायिन्- -थी
 चञ्चु ४: ३०
 स्वसाखा(खा-आ)श्रय- -यम्
 कप्र १, ३, २.
 स्वसाखा-श्रोत्रिय- -वेग अय
 २२, ८, ४.
 स्वशास्त्रिक^३- -कम् अय ६९,
 २, २.
 स्वशास्त्रो(सा-उ)क्त-विधि-
 त्विच- -अ कप्र २, ५, १३०.
 स्वशास्त्र- -शम् बौधौ २२, ८-
 १४, -शस्य बौधौ २२, ८
 २५, -शे बौधौ २२, ८: २३
 स्वशास्त्र-संस्था- -र वाप २१,
 ३३^४
 स्व-शाय- -व्यस्य वैध २, १३, १
 स्व-श्रुति- > स्वाश्रुत्य- -रवात्
 बाधौ १, १, १, ६७
 स्व-सयुक्त- -क्त नाशि २, २, १८.
 स्व-सम्प- -न्धात् काथे २२,
 १९, २८
 स्व-सिद्ध^५- -तिच: बौधौ १२.

११. ८१.
 स्व-सु(त>)वा^६- -नाम् बौध २,
 ११, २१.
 स्व-सु^७- -स्त अय ४८, ७६१.
 स्व-सुर- -र. आय २, ३, ७, गोष्ट
 ४, ११, द्राष्ट ३, ५, ३७, -रम्
 गोष्ट ३, ९, १२, ४, २, २३; द्राष्ट
 ३, ३, २०, ५, १०, -रे गोष्ट ३,
 ९, १६, कप्र २, ८, ६.
 स्वसुर-शायिन्- -थी कप्र ३,
 ६, १३
 स्वसुरा(र-आ)रोहण- -णस्य
 कप्र ३, ७, ७.
 स्व-स्तोत्रिय- -यम् निम् ८, २
 ४७^८
 स्व-स्तोत्र, मा^९- -सम् बाधौ १०,
 ३, ८, -मा लाधौ ९, ७, ८,
 -मा: निम् ६, ५: ११, -मानि
 क्षुम् २, ७ ७, १४, ८, ९,
 निम् ६, ५ १०, ८, १३ ५
 स्व-स्य- पाप ५, १, १२४^{१०}, -स्य.
 शेषि १५३, नाशि १, २३, नाशि
 १, ६, १२.
 स्वास्य- पा ५, १, १२४.
 स्व-स्थान- -नाम् बौधौ ७३,
 याशि १, ४९, -नात् बौधि १,
 ५, ३, मीत् ५, ३, ३, -ने बौधौ
 २६, १६ १४४४, विप १, ४५,
 मीत् १०, ५, ६३.
 स्वस्थान-विद्वि- -द्वि काधौ
 ८, ३, ५, मीत् १०, ५, ८४
 स्वस्थान-स्थ- -स्थौ कप्र २, ५,
 १८
 स्वस्थाना(न-अ)स्व- -न्येन

बाधौ ३, ५, १६
 स्व-स्थान, ना^{११}- -न बौधौ २६,
 १५, ३, -नम् वैधौ १८, ८:
 १०, लाधौ १०, १५, २, ५,
 -ना आशि १, २४, -नानाम्
 मीत् ११, ४, १९, -नानि निम्
 ६, ५, २३, -नासु लाधौ ८, ९,
 १, -नेषु बौधौ २३, २ ६,
 -वै: द्विधौ ५, ६, ११
 स्वस्थान-तर- -रा निम् ८, ७:
 ११
 स्वस्थान-स्व- -व्वात् मीत् १२,
 ३, ५, -स्वेन अश्र २, ४
 स्व-स्थान करण^{१२}- -या आशि २,
 १
 स्व-स्थित- -ज: वा १४, ६.
 स्व-स्व- -स्वम् वैधौ १५, २४: ६.
 स्वस्व-प्रामा(म-अ)धिप- -यान्
 विप ३, ७
 स्व(स्व-धर्मा(धै-अ)नुष्ठान-
 -नेन श्रव २४८
 स्व-हरण- -यम् बौध १२, १०,
 २४
 स्व-हस्त- -स्तेन वैध २, १६: ३,
 -सै विप ७, १३.
 स्वहस्त-पिङ्गि- -नम् विप ७,
 ४.
 स्वहस्त-लिखित- -नम् विप ७,
 ५
 स्व-हित- -तम् अय ६४, १०, ८.
 स्व-हृदय- -यम् आशि २, ३,
 ५: ९.
 स्व-हृदय-पद्म- -यस्य विप ९७, ९.
 स्व-होतृ^{१३}- -ना बाधौ ४, ७, ४;

a) वत् । b) उप < उद्/स्था । c) विप । मत्स्यवियु इन् प्र । d) ष्फा प्रमुत्विच
 जीत । e) वैप १ द्र । f) वामे वेद१ सल्लि: शो १२, ३, ४१ टि द्र । g) उप = २सुत, वा- ।
 h) नदी-नामन् । i) ससुत: इति विप १, १३ । j) ससुतो इति मूले । k) तु पागम । l) पत्, >
 दस. । m) सर्वस्व इति ष ।

वागी ५,१०,१८.
 स्वा(स्-धं)स्- स्वात् मासि २, ७.
 स्वा(स्-ध)क्षर- र्णेण मासि ११,
 ११.
 स्वा(स्-धा)वात्- र्म हिण् १,
 १४,५.
 स्वा(स्-अ)मिन्- मिन्म वासौ २,
 २,५,१४.
 स्वा(स्-म)ह- ह्म पा ६,२,१६७;
 १७५; पावा ६,२,१७७; -ह्रात्
 पा ४,१,५४; ५,४,११३; ६,३,
 १२,४०; पावा ५,२,११७; १२७;
 ६,३,३९; -ह्रे ह्रमा २,३१; पा
 ३,४,५४; ६१; ५,४,१५९;
 -ह्रेम्यः पा ५,२,६६.
 स्वाह-कर्मक- क्वात् पावा १,
 ३,२०; २७; २८.
 स्वाह-प्रह्व- वात् पावा ४,
 १,५४.
 स्वाह-समुदाय-प्रतियेषा (ध-
 ङ)र्थ- र्थम् पावा ४,१,५४.
 स्वाहा(ह-अ)निधान- न्म वा
 ४,६.
 स्वाहा(ह-अ)भ्युक्ष्य- यम् वा
 १,२.
 स्वा(स्-अ)द्वगुण- येन कैश्च २,
 १:३०.
 स्वा(स्-आ)धम्- न्मनि वैश्वी १८,
 १६:३६; कैश्च ४, १:२२;
 -न्मलम् पाठ १,१८,५.
 स्वा(स्-आ)द्य(दि-अ)धं- र्थम्
 पावा १,१,६८.
 स्वा(स्-अ)वात्- वायो:
 ष्य ४७,१,१८.
 स्वा(स्-अ)वीन-वृत्ति- त्तिः शेष
 २४५.

स्वा(स्-म)प्रिय- यस्व वैश्वी १५,
 ११:३.
 स्वा(स्-म)भिधेय- यम् वृदे २,
 ११७.
 स्वा(स्-अ)भिप्राय- यम् वीष १,
 ५,६६.
 स्वामिन्- वाठहु ६,६८; पा ५,२,
 १२६; -मिन्: आप्तौ २४, ४,
 १; साधौ १०, १७, १७; ष्य;
 -मिन्म ष्य ७०, २३, ४; मीम्
 ३,८, २८; -मिनाम् मीम् १०,
 ६,६१; -मिनि विष २२, २०;
 पा ६,२,१७; पावा ३,१,१०३;
 मीम् ९, ३, ३८; १०, २, ३१;
 -मिने ष्य २०,६, ५; आप्य
 २,३,१०; वीष ३, २, ३; विष
 ५, १३८; १४६; १५५; दिष;
 -मिनौ आप्य २,४, १३; दिष
 २,१, ६६; -मिन्मः आप्य २,
 २६, २४; २८, ६; ७; दिष;
 -मी काशी १,६,९; ७,१९; पाठ
 ३,२,६; काष्ठ ४१: १७; विष
 ५,४१; १५७; १६५; मीष १०,
 ३८; मीष् ६,३,२३.
 स्वामि-कर्मन्- मं मीष् ३,८,१.
 स्वामि-कुल- स्वात् दिष २,१,
 ७३.
 स्वामि-स्व- स्वम् विष १७,२;
 मीष् ६,१,१९; ६, २०; -स्वस्व
 द्विषी ३,१, २८; -स्वस्व मीष्
 ६,६, २३; -स्वेव मीष् ६,१,
 २०,६,१०.
 स्वामि-देव(ता)- त- तस्व
 मीष् २,३,३५.
 स्वामि-दोष- यः वीष १२,
 १६.

स्वामि-पुत्र- कम् मीष् ३,
 ५,६.
 स्वामि-योग- गात् वाशी १२,
 १,८.
 स्वामि-वैश्य- इषयो: पा ३,१,
 १०३.
 स्वामि-सप्तदश- दाः मीष्
 ३,७,३८.
 स्वामी(मि-ई)शरा(र-अ)धिपति-
 पात्याद-साक्षि-प्रतिभू-प्रसूत-
 -तै: पा २,३,३९.
 स्वाम्य- यम् सुष्य ८८: ९.
 स्वाम्या(मि-आख्या)- ख्य-
 -ख्या: मीष् १०,६,५५.
 स्वा(स्-आ)पत्न- वात् वैश्वी १५,
 २३: १८; -ने वैश्वी २, १०:
 २; ८, ८: २x.
 स्वा(स्-आ)सुप्त- यु: अश्व २,
 १७.
 स्व(<स् > -स् <ह >)डा-
 -हा: वीश्वी २८, ३: १५
 वापूश्वी ३,५८: ७.
 स्वा(स्-अ)धं- र्थम् वत्र २, ९,
 २०; -र्थात्मा वाप १९, १४;
 -र्थं पावा ३,१,२२; ४,१,३x;
 मीष् ६,६,३१; ७,२,३.
 स्वार्थ-विज्ञान- वात् पावा ३,
 ३,१९; ४,६७; ४,४,१४०; ५,३,
 १०.
 स्वार्थ-साधक- कम् वा १,१५.
 स्वार्थ-साधन- त्थर- र: विष
 २३,९.
 स्वार्थ-सिद्धि- कर- र: ष्य
 ७०, २, ५.
 स्व(स्-अ)धं- र्थ-स्व- स्वाह
 मीष् २,२,५०.

a) वत्. b) = प्रभु, पति, शरपति-प्रष्ट. c) <स् + > कम् दति. d) स्या, आप्य
 २,४,२० रामकृष्ण इति पाठे. e) कैश्च २, २४. द. f) पाठे. कैश्च १ स्वामीः ऋ ७,१५,५ टि. द. १

स्विका- वा ७,३,४७.
 स्वी/ह्र, स्वीकृत्यात् विध २८,३४.
 स्वी-करण-कर्मन्- मंगाम् वा
 १४,१२.
 स्वीय- वा ४, २, १३८^१; -यम्
 द्विधौ १२,७,१२.
 स्वो(स्व-२)च्छा- च्छा विध १७,१.
 स्वोच्छा प्रयोग- गः कौशि २०.
 स्वै(स्व-ई)र- पावा ६,१,८८; -रम्
 वाच १५,१४.
 स्वै(स्व-ई)रिन्- पावा ६,१,८८.
 स्वैरिणी- श्रुत ३, ४, ६;
 -ण्यः शंघ ८४; -ण्यम् शंघ
 ४०१.
 स्वैरि-कर्मन्- मंसु आणघ १,
 ८,४; ११, १२; द्विधः; -मांनि
 आणघ १,३,१५; द्विधः.
 स्वो(स्व-१७)पश्य- श्ये वीण २,
 १,४.
 स्व^२स्व^३ -> स्वा(स्व-अ)प्याय^४- पाग
 ७, १,४; ८, १,२७; ५७; ६९;
 -यो वैणु ६, १७,५; शंघ ३५१;
 आणघ; -यम् शांश्री १०,१२,५;
 आफरी १५, २९, ३; वीश्री २,
 २० : २१; २३; माश्री; -यस्य
 श्रमा १५,६; -यान् माण १, ४,
 १; -यान् वाश्री १२,४,३; -ये
 आश्री २४,१,३७, निस्तु ७, १३ :
 ५; १२; वाघ; -येन कौण ३,१२,
 १९; आणघ २, २२, १९; वीध;
 -यैः वाघ २५,७.
 सौवाप्यायिक- वा ७,३, ४.
 स्वाप्याय-रत- तम् मश्रा १५,
 ७.
 स्वाप्याय-तर्पण- गाम्याम् वैध
 १,४,४.

स्वाप्याय-वर्शन- नात् काश्री
 २६,७,५८.
 स्वाप्याय-दान-प्रतिग्रह-
 -दानि वैणु ६, ४ : ४.
 स्वाप्याय-देवाचन-वेदमकार्य-
 -यैम् भाण्यो ८,६.
 स्वाप्याय-धर्म- मः आश्री ८,
 १४, १९; -मान् निस्तु ७,१३ :
 १३; ८,७ : २२.
 स्वाप्याय-हृष्ट- -हृक् आणघ १,
 ५,११; द्विध १,२,११.
 स्वाप्याय-नित्यकर्मन्- -मांनि
 वैध १,२,५.
 स्वाप्याय-पर- रः वैणु १, १ :
 १४.
 स्वाप्याय-प्रयोग- गः आश्री
 ८,१२,११.
 स्वाप्याय-कल- लम् वृदे ६,
 १४३.
 स्वाप्याय-वत्-द्राश्री २, १, १;
 लाश्री १,५,१; मीव.
 स्वाप्याय-वत्- वतः कौण ३,
 १२, २०; -वता कौण ३, १९,
 १७; -वन्तः वैणु ६७ : ६.
 स्वाप्याय-विधि- धिः आण ३,
 २,१; -धिम् आणित २,६, ४ :
 १.
 स्वाप्याय-विरोधिन्- धि विण
 ७१, ४; -धितः वाण ९, २१;
 गौण ३,५, १९.
 स्वाप्याय-शील- ला कौण ३,
 १९,११.
 स्वाप्याय-शुक्- कम् वैणु २,
 १० : १३.
 स्वाप्याय-सेवा- -वाम् विण ५९,
 ३०.

स्वाप्याय-दर- -रेण द्राश्री २,
 ४,२१; लाश्री १,८,९.
 स्वाप्याय(य-अ)चार-वत्-
 -वतः वैणु ४, ३ : २.
 स्वाप्याय(य-आ)दि- द्वौ श्रमा
 १,१६.
 स्वाप्याय(य-अ)व्ययन- नम्
 वाघ २, १४.
 स्वाप्याय(य-अ)प्यायिन्-
 -विनाम् वाघ २६,१४.
 स्वाप्याय(य-अ)प्येतु-संल्लव-
 -यः वृदे ६,१३३.
 स्वाप्याय(य-अ)नित्यव(ति-अ)
 धं- -यैम् वीध १४,४४.
 स्वाप्याय(य-अ)प्यक- -कस्य
 वाण ६,१,१.
 स्वाप्याय(य-अ)धं- -धाः वीश्री
 २०,२० : ३४.
 स्वाप्यायिन्- -विणम् वाघ ३,
 १८; -यी वीश्रीप्र ५४ : १९.
 स्वाप्याये(य-उ)ज्या-परायण-
 -णः वीध २,९,३.
 स्वाप्यायो(य-उ)य- -यम्
 वाघ ६,३०.
 स्वाप्यायो(य-उ)सर्ग-दान- नेणु
 वीध २,३,५९.
 स्वाप्यायो(य-उ)शकर्मन्- मं
 वाण १३,१.
 नौसः परश्च यो दिवः पुरः^६ द्विधौ
 ८,४,४५.
 स्व-क- १-२स्व-कर्मन्-प्रष्टु. १स्व-द.
 स्व(स्व-२)क- -क. ^७ आश्री १०,६,
 १३; -कम् आणघ २,११, ३;
 माश्री २,११,४; माश्री १,२,६,
 २४; ८,३, १३; वाश्री १,३, ३,
 २८; द्विधौ १,८,२८.

a) द्व. पागम. 1 b) वैध २, ३३६. द. 1 c) दरा. न्त १०,१७,१३ विणे. 1 d) दरा. माश्री १०,४,१० प्रष्टु. स्वन्वक्तः इति पाणे. 1

स्वक्षय- , शेष- प्रम. १स- द.
 'स्वगा' काथी ३, ६, १५; आपथी
 ३, ७, ५, १०; १९, ३० x x; वीथी;
 माथी ३, १६, ३०; द्विथी २, ८,
 १५.
 स्वगा/ह > स्वगा-कार- रेज
 द्विथी १५, ५, १०; -रे: आपथी
 १४, १७, १०.
 स्वगाकार-कृत- -तः माथी
 १, ८, ६, ३, ३१.
 'स्वगा-कृत- -तः^१ वीथी छ,
 ११ : २४; २४, ६ : १०; -वक्ष
 वीथी १२, ५ : २२.
 स्व-गुण^० प्रम. १स- द.
 स्वङ्ग^० - (> स्त्राङ्गि- पा.) पाग ७,
 ३, ७.
 स्व(सु-अ)ङ्कार- > परि- -रिति का
 १, ९, ११.
 'स्व(सु-अ)ङ्गुरि^० - -रि: शोथी ८,
 १८, १; वीथी ९, ४ : ९; १०,
 ७ : १०; आभित २, १, ५ : १९.
 स्व-चक्र^० प्रम. १स- द.
 स्वज, जा^० - -जः आपथी २, १७,
 १६; -जम् आपथी १५, १९,
 २४; माथी ११, २०, ५; अथ
 ३, २६; -जा द्विथी २४, ७,
 २८.
 स्व-जन- १स- द.
 स्व(सु-अ)जस- -जम् आप ३, १, १२.
 'स्वजा^० वीथी २, १० : १२; १४ x x;

वीथ २, ११, ३०-३२.
 स्व-जा- , जातीय- प्रम. १स- द.
 'स्व(सु-अ)ज्ज^० - -जम्: आथी २,
 १८, १६; स्वजम् वीथी ३३,
 ३५ : ५.
 स्व(सु-अ)ज्जन- -जः वा १२, ४४;
 -जे: वा ११, १४.
 'स्व(सु-अ)ज्जस्^० - -जा: निप छ, २;
 वा ५, ७, ७.
 'स्वज्ज^० पाषा. भ्वा. आत्म. परि-
 ध्वा.
 स्व-तन्त्र- प्रम. १स- द.
 स्व(सु-अ)ति-ग्रहण- -गम् पाषा ५,
 ४, ६९.
 स्व-तृतीय- प्रम. १स- द.
 'स्वदू (वपा.)^० पाषा. भ्वा. आत्म.,
 सुरा. डम. आसादने, स्वइति
 निप ३, १४१; स्वदन्ति वा ८,
 ७, १०; स्वदाति वीथी ११,
 २ : ४१; स्वदह जेथ १, ३ :
 ११; स्वदन्ताथ वीथी छ, ५ :
 ४१; स्वदन्तु वा ८, १०, १०;
 'स्वदत्त आथी ३, ५, ९; शोथी
 ९, २२, ५; 'स्वदत्त आपथी ७,
 १३, १२; वीथी छ, ५ : २१;
 माथी ७, १०, १२.
 स्वदवामि वाथी ३, ७५ : ५;
 स्वदन्तु वा ८, ७; १७; 'स्वद-
 व > वा वा ८, ६; शुश ३,
 १२९.

'स्वदित- -तम् आथी छ, १६, ५;
 ५, १२, १; वीथी २, १७ : ३;
 माथी छ, २१, ४; द्विथी.
 'स्वदितुम्^० द्विथी ६, ४, २६.
 'स्वदात्त- -तम् आपथी ७, १३, १२;
 वीथी छ, ५ : २१; माथी.
 स्वादन- -जे अप छ ८, २८.
 'स्वादित- -जाप^० आभित ३, ९, १;
 ५; वीथि २, ५, १५.
 स्वादु^० - पाठ १, १; पाग ५, १,
 १२२; -द्वयः ताम्र २, ८, २१;
 -दु वाथी छ, २० : २३; वा
 १४, ३०; अथा १, १, १५;
 -दुः आथी ५, २०, ६; आपथी
 १३, १५, १४; वीथी; -दुः
 माथी १२, १, ९; वीथी १७,
 ३२ : १; माथी; -दुः द्विथी
 १२, ६, ६; -दुः आथी ७, ४,
 ४; १२, १५; शोथी; वेताथी
 छ १, ६.
 'स्वादी^० - -दीम् काथी
 १२, १, २१; आपथी १२, १, ९;
 वीथी १७, ३२ : १; माथी.
 स्वादिम्^० - पा ५, १, १२२.
 स्वादिष्ठ, प्या- -० ष्ट द्विथी १२,
 ६, ६; -ष्टम् पाठ २, ९, १५;
 -ष्टवा जैथीका १८५; शुम्, १,
 ५ : १७; ताम्र; वा ११, ३;
 -ष्टवा आपथी ३, ११, २; माथी
 ३, १०, २; द्विथी; -ष्टाम् निप

d) वेप १ द. । b) पामि. वेप १ सुगु मा ८, १८ टि. द. । c) पामि. वेप १ स्वगाकारैः काठ ९,
 १० टि. द. । d) पामि. वेप १ स्वगाकृतः तै ३, ५, ५, २ टि. द. । e) व्यप. । f) पामि. वेप १ स्वदुःगुः क
 २, १२, ७ टि. द. । g) = सर्प-विशेष- । h) = (सर्प-जाता-) ओषधि- इति चरुदणः, = सर्प-विशेष- इति? ।
 i) परस्परं पामि. । j) = ओषधि-विशेष- । k) अन्व. । l) पा ६, ४, २५; ८, ३, ६५; ११८ पाषा ८, ३, ११९
 परास्यः द. । m) पा ८, ३, ६२ परास्यः द. । n) धा. अर्चनीं श्रुतिः । o) पामि. वेप १ स्वदन्ति क ७, २, २
 टि. द. । p) पामि. वेप १ स्वदाति तै ४, १, १, ३ टि. द. । q) पामि. वेप १ स्वदन्ताथ टि द. । r) पामि.
 वेप १ स्वदन्तु क ६, २, ४ टि. द. । s) परस्परं पामि. । t) वपा. द्विपि २१ : १७ वीथि १, १, २७ सादिताय
 इति पामि. । u) सा^० इति द. । v) 'धोः इति पाठः १ वनि. शोवः (तु. क १, ८४, १०) ।

सुषुप्त्स्- सुपः पावा ३, २, ८४.
 सुषुप्त्स्व- -प्स्वत् या १४, ४.
 स्वप- -ये अप ४८, २२.
 स्वपत्- -पत् वृदे ६, ३६; -पत्तः
 वैताश्री ५, १९; पाए ३, ७, २;
 वृदे ५, ८५; वा ४, १६; १२.
 ३०^१; -^१पत्सु^१ आतिए २, १,
 ३; २४; द्वि २, ३, ७, -पत्
 कौट् १३२, २१; आपघ २, १२,
 १३^१, १४; -^१पत्त् आतिए ३,
 १२, २; १०; बौध ४, ३, ६;
 -पत्त् आपत् २, १४, २^१^१;
 आए ३, ७, १; भाए १, २३;
 १०^१^१; कौट् ४६, ५५^१, अप
 १, ३६, ७^१; वैध ३, २, १३.
 स्वपन्ती- -न्तीम् भाए १, ११;
 ७.

स्वपिति-> ण्वि-कर्मन्- -माँगौ
 निष ३, २२; वा ३, १९.
 स्वप्न,प्ना- पाठ ३, १०; पा ३, ३,
 ११; -^१पंम कौट् ४६, १३;
 अप; -अ बौधौ २, ५; १२^१;
^१भापत् २, १६, १४; १७, २२;
 अप ६७, ३, ३; -अम् काश्री
 २५, ११, २१; आए ३, ६, ५;
 द्वि; -अल शां १, ४, २^१;
 पावा ३, ४, २१; -माः अप ६८,
 २, ५५; ५८; -मात् बौधौ २६,
 ३३; १५; अप ६८, १, ५०;
 बौध ३, ७, ४^१; -मात् भाए २,

१४, ११; अप ६८, ३, १; ४, ५;
 वा १२, २८; -अ आपश्री १७,
 १३, ११; बौधौ; गौध २३,
 २०^१; वृदे ६, ११; -अन आश्री
 २, ८, ४; बौधौ २६, ७; १८;
 माह; -प्नेषु वैताश्री १२, ७;
 अप ६८, १, २१; ३०^१^१.
 स्वाप्त्- -प्त्स्वत् अप ६, ४६.
 स्वप्न-काल- -ले अप ३०^१, २, ७.
 स्वप्नतस्मानपत्- -नैः अप
 ३३, ६, १०^१.
 स्वप्नदर्शनाद्यैर्निदर्शन- -नम्
 अप ६८, ३, ७.
 स्वप्न-नंदान- -नाः वा १२,
 २८^१.
 स्वप्न-नदीतरणा(ण-अ)निवर्पणा-
 (ण-अ)मिष्व-प्रतिमन्त्र- -णेषु
 मीम् ११, ४, ५१.
 स्वप्न-नदीतरणा (ण-अ)वर्पणा-
 (ण-अ)मिष्वदर्शन-प्रवाण- -णेषु
 काश्री १, ७, १२.
 स्वप्न-यवैन्त- -न्तम् आपघ १,
 १, २१^१; ११, ३३^१; द्वि १,
 ३, २२^१; ४९^१, ८४.
 स्वप्न-प्रकृति-भाव- -यम् अप
 ६८, १, ५५.
 स्वप्न-माला- -माल् अप ६८,
 १, ५२.
 स्वप्न-सु(ख) > -पत्- -पत्ताः
 काश्री २५, ११, २१^१.

स्वप्नसुप्रपत्त- वैधौ २१, २;
 ७^१.
 स्वप्नसुप्रपत्त- वैधौ २८, १;
 २१^१.
 स्वप्ना शौच ४, ३०.
 स्वप्ना^१ अत्र ४, ५^१.
 स्वप्ना(प्र-अ)दुस्त- -तापि अप
 ६९, ६, १.
 स्वप्ना(प्र-अ)धाय- -यम् अप
 ६८, १, २.
 स्वप्ना(प्र-अ)न्त- -न्ते बौध ४,
 ११, १^१; वृदे ६, १४८.
 स्वप्नात्तिक- -कः अश्री
 २३, २.
 स्वप्ना(प्र-अ)न्त- -न्तम्
 बौध ३, १, १६; आपघ १, १०,
 २२^१; बौध १, ११, ३४.
 स्वप्ना(प्र-अ)न्त- -रे आतिए
 २, ४, ४; २.
 स्वप्ना(प्र-अ)भिकारण- -णैः
 अप ४६, ५, १^१.
 स्वप्ना(प्र-अ)तत्- -ने बौध ३,
 ५, १४.
 स्वप्न- पा ३, २, १०२.
 स्वप्न- -प्स्वत् आपश्री १०,
 १८, १; माश्री १०, ११, १०;
 १२; माश्री.
 स्वपत्- -नम् बौध ३६, १, अत्र
 ४, ५.
 स्वापत्- -यत् वृदे २, ६८.

a) सा (भू. [श्री ७, १५]) सुप्ता इति । b) परस्मै पाठे । c) पाठे. पृ ३०५ ग द ।
 d) घट । e) अस्मै इति पाठः इति. शेषः (घ. भाष्यम्) । f) विप. (सूत्र-) । देवताऽप्ये प्र ।
 g) = मन्त्र-गण- । h) दुःस्वप्नप्रमत्तात्मैः इति संस्कृतैः टि. ३ । i) वैष १ द. । j) 'पत्ता' इति पाठः इ
 यति. शेषः (घ. भाष्यम्; द्वि १, ३, ८४ ब) । k) एषा. स्वप्नवर्पन्त् <> स्वप्नन्त् इति पाठे ।
 l) वैष १ सुप्ताः श्री ७, १०५, १ टि. द. । पाठे. वैष १ १११६ इ द. । m) (स्वप्नसु->) स्वप्नसुप; कथः
 वा कथः वा (<√कृत् वा √कृत् वा 'हितायाम्') इति द्विपद. शेषः (घ. वैष १ स्वप्नसुपताः टि. [पृ ६२६ b
 नेटम्]). n) पृ ६८९ उपक्रमे (क्रि.) नेटम् । o) स्वप्नाभिकृत्त्वेन ह्ययत्र प्रतीकम् । p) = स्वप्नान्तर- ।
 q) पाठे. वैष १ स्वप्नाभिकृत्त्वेन टि. द. । r) वप. <√वप (ओनेने) ।

†स्व(सु-अ)पत्य,स्वा^०- -वस्व आश्री
७,११,५, पाण्डू ३, ५, ३, -स्वा
आश्री २, १५, १, द्वित्री १५,
७,२३, -स्वायवैताश्री २६, १०.

स्व पत्य- प्रत्य १स्व- द.

स्व(सु-अ)परास्- -ह्ये आश्री ४, ८, १२,
आश्री ११, ४, १; माश्री १२,
४, १, ५, १३, द्वित्री ७, ४, २३.

†स्व(सु-अ)पस्^०- > √स्वपस >
स्वपसमा(त>)वा- -ता पाण्डू
३, ३, ५^०

स्वपस्य^०- -स्वाय^० आश्री ३, ४, ३,
१६

†स्व(सु-अ)पस्^०- -वस. शाश्री ८,
२०, १^०, वीण्डू ३, ११, ३, वा ८,
१३^०, -गा: आश्री २, १, २०,
आश्री ५, १५, २, माण्डू

स्व पाठ- प्रत्य १स्व- द.

†स्व(सु-अ)पिवात^०- -वत या १०,
७^०.

स्व-पुण्य^० प्रत्य १स्व- द

स्वप्र- √स्वप द

स्व-प्रति^० प्रत्य १स्व- द

†स्व(सु-अ)मिधि^०- > †मि-मुग्ध^०-
-म्य माश्री ५, २८.

स्व-मू- प्रत्य १स्व- द.

स्व(सु-अ)भ्यक्त^०- -क शाश्री १२,
२१, २^०, माश्री १०, ४, १०^०,
माश्री २, १, १, २६^०, द्वित्री १०,
१, ४^०, वीण्डू २, ६, १०^०, -कम्
वीश्री ४, ४: २३

स्व(सु-अ)भ्यग्र^०- -ग्रम् आश्री ५,
२०, २

स्व(सु-अ)भ्यलंकृत(त>)ता- -ता अप
६८, १, २६.

स्व-मांस- प्रत्य १स्व- द

स्वय^०- -व्यम् आश्री १, ५, ८, २, ४,
२, ५, ८, ९, १३, १३; शाश्री,
गौष ४, १०^०, पाण्डू १, १, ३५,
वा २, १, २५

†स्वयं र(ग्ल>)ला^०- -न्याया^०
शाश्री ३, ३, १, ४२.

स्वयं-न(क>)का- -का आश्री ११,
१, ८.

स्वयं विप्रतिप(स>)शा- -शा वाण्डू
२८, २.

स्वयं विलोक^०- -नम् आश्री १८,
११, ६, १५, आश्री ३, ३, १, ४६,
द्वित्री १३, ४, १८, २४.

स्वय वृष- -वृषम् आश्री १८,
११, १०^०.

स्वयं शीमे- -शानि गौष २३, २६.

स्वयं शुष्क- -ष्का. वैश्री ११, १०
१४.

स्वय सपस- -स: वीश्री^० ३, २: ८,
३. ६, माश्री ५, २०, ४, २१, ५

स्वय सायिन्- -नीणि या ५, ४.

स्वय-नस- -स्वत कौष ३१, ६.

स्वय-कुत- -कुतवाश्री ३, २४ १२.

स्वय होम- -म: शाश्री ४, ५, १२.

स्वयहोमिन्- -मी शाश्री २, ३,
२३, आश्री २५, ६, १०, कम्

२३, १, २.
स्वयं-वृत्, ता^०- -या आश्री १८,
११, ९; वीश्री १२, ६: ४, द्वित्री,
-तम् आश्री १८, ११, १०,
वाश्री ३, ३, १, ४७, द्वित्री, -ता
आश्री १८, ११, ९, वीश्री १२,
६: ३, द्वित्री, -ता: वाश्री २०,
२, ७, द्राण्डू ४, १, १२^०, -नेषु
वीश्री २२, १७: १५

स्वयं गामि(र>)नी- -व्य. या
१०, ४७.

स्वयं-खात- -ता गौण्डू ४, ५, १३^०.

स्वयं-धिति^०- -धिमि: वैश्री १८,
२१: ४०, -निम् वीश्री १०,
२०: २, २३: २०xx, वैश्री,
-ती वीण्डू ७: २, -न्या आश्री
१६, २१, ६, ८, ३४, ४, १९,
११, ५, द्वित्री .

स्वय-शोदि- -त वीश्री २९, २ ११

स्वयं-जात- -तम् आश्री १५, ३, २८.

स्वयं-जोतिस्^०- -ति वैण्डू २, १८^०
१, -तिपि वैण्डू ५, १ १४.

स्वयं दत्त^०- -त. वीण्डू २, २, २६^०,
-तम् वीण्डू २, २, २२.

स्वयं-दिन^०- -नम् आश्री १८,
११, ९, १०, वीश्री १२, ६: ४,
वाश्री ३, ३, १, ४८, द्वित्री.

स्वयं-दीर्घ^०- -र्घ कौष ३९, २५^०

स्वयं-ग(त>)ता- -ता शाश्री १४,
१, ११.

†स्वयम्-अभिगूर्त^०- -ताय आश्री

a) = स्वपत्यु- (वैण्डू १ द.) । b) वैण्डू १ द । c) पामे वैण्डू १, १३१३: १ द । d) व्यु
पामे च वैण्डू १ द स्वपस->न्याय टि द । e) पामे वृ २०५५ टि द । f) प्रास. । g) सय वीण्डू १,
११, ६ मिय इति पामे । h) व्यु पामे च वैण्डू १ द । i) सय. आश्री ३, २, १, ४९ स्वयमापनम् इति
पामे । j) वृ २५७९ सय सपस. इति वैण्डू । k) परतपरं पामे । l) नाप. (मन्त्र विशेष- [वृ. ते ५, ७, ८],
निति विशेष-) । m) विण्डू. १ वस । n) = पुन-विशेष- । o) सय वाण्डू १७, ३३ स्वयमुपागत
इति, विण्डू १५, २२ स्वयमुपागतः इति च पामे । p) 'नयदीर्घ'- इति P.W. प्र. । q) सय. आश्री १५, १, ८
स्वयप्रदिग् इति पामे ।

१३, १२, ४; वैश्री १६, १४ : १;
 ५; हिथ्री ९, ३, ५०.
 स्वयम्-अर्जित- -त्त्म् विध १८,
 ४३; गौघ २८, ३१०.
 स्वयमर्जित-प्रवेदन- -नम् शेष
 २५५.
 स्वयम्-भवप(त्)वा^० -वाये^०
 आपथी १८, ११, २; वीथी १२,
 ६:२;७; हिथ्री १३, ४, १५.
 स्वयम्-आवृण, ण्णा^० -णा
 आपथी १७, २५, ७^३; वीथी १९,
 ८ : ४; वाथुथी; -ण्णाः काथी
 १७, ३, १९; आपथी १६, १३,
 १०; २१, २; १७, ७, ३५५;
 वीथी; वैथ्री १८, ११ : २६^६;
 -ण्णाम् कौत् ७२, १५^६;
 -ण्णाभ्यः वीथी १९, ६ : ९, ७ :
 ५९; ९ : ७; -ण्णाम् काथी
 १७, ४, १५; ५, ३; ६, २; ९,
 १५५; आपथी; वाथी २, १, ७,
 १४^१; -ण्णायाः आपथी १६,
 २५, १; वीथी १०, ३५ : ८-
 ११५५; माथी; -ण्णायात् काथी
 १८, ३, ५; आपथी १६, १२, २;
 ५; २४, १५५; वीथी; -ण्णाये
 वीथी १०, ४७ : ७; ८^३; ९५५;
 वैथी १९, ६ : ५५; -ण्णासु
 द्राथी २, १, ११; लाथी १, ५, ८.
 स्वयमावृण-देव(ता) > त-
 -ताः छुप्र २, १९१६.
 स्वयमावृण्णा-काल- -के वाथुथी
 ४, ११७ : ८; १०.

स्वयमावृण्णा(ण्णा-त्रा)दि- -दि
 आपथी १९, १४, १६; २६; १५,
 ५; वीथी १९, १० : ५२; हिथ्री
 २३, ३, १७; २०; २७.
 स्वयमावृण्णा-देव(ता) > त-
 -ते छुप्र २, २४३.
 स्वयमावृण्णा-निकोत^० -त्तम्
 वीथी १०, २७ : ६; ३९ : ५;
 ४४ : ५; २५, ३० : ३.
 स्वयमावृण्णा-नेताः सिग्-विश्व-
 उवोतिर-कृतव्या(व्या-अ)वाटा-
 -वासु काथी १७, ४, २६.
 स्वयमावृण्णा-लोक- -कः वाथी
 २, १, ६, २; -कम् वाथी २, १,
 ६, ९; -कल् माथी ६, १, ६, २०;
 २, ३, १७; -के माथी ६, १, ६,
 ११; १७५५; वाथी २, १, ५, २२.
 स्वयमावृण्णा(ण्णा-अ) वक्रश-
 -नाम् वीथी २५, ३० : २; -शात्
 वीथी १९, ६ : ८; ९; -ने वीथी
 १०, ३१ : ८५५; वीथु १० :
 २८; १४ : ७; १५ : ४.
 स्वयमावृण्णा-किर्मा^० -
 -र्मावाम् वैथ्री १९, ४ : २४.
 स्वयमावृण्णा-विश्वउवोतिर-
 कृतव्या- -नवानाम् काथी १८,
 ६, ३२.
 स्वयमावृण्णा-सृष्ट- -ष्टम् वाथी
 १८, ३, १०.
 स्वयमावृण्णीय- -यम् वीथी
 १०, २४ : १५.
 स्वयम्-आपदन- -नम् वाथी ३, ३,

१, ४९^१.
 स्वयम्-ईदित-लब्ध- -ब्धम् विध
 १८, ४२.
 स्वयम्-उपगत^१ -तः विध १५,
 २२^६.
 स्वयम्-उपागत^१ -तः वाथ १७, ३३^६
 स्वयम्-उपार्जित- -ते विध १७, १^१.
 स्वयम्-कृतपाज- -अम् वीथी १६,
 ५ : १; ३; ८.
 स्वयं-पवित- -नानाम् वीथी २२,
 १७ : १६.
 स्वयं-याव- -यः वीथी १३, १३ : ९;
 २६, ५ : २०-२२.
 स्वयं-प्रखलित- -ते आपथ ८, ५;
 वीथ ४, ३, १; भाथ २, ३१ :
 ५; कौध ४६, २२.
 स्वयं-प्रदीपि- -ये काथी १५, १, ८^५.
 स्वयं-प्रवीणं- -येन पाठ २, ७, १६.
 स्वयं-प्रोक- -त्तम् हिथि १७ : १;
 -त्ताः वैथि ११; पाथि ३.
 स्वयं-भ(त्) > म्ना- -ग्वा काथी
 १५, ३, २७.
 स्वयं-भु^० -भु थाथी १६, १५, १;
 या २, ११; -भुम् भाग्वी १, १.
 स्वयं-भू^० -भुवः वाथ २८ : १९;
 -भुवम् भाग्थि २, ४, ६ : १३^१;
 भा ६६, ३, ४; वीथ २, ५, २०;
 -भुवा सु ४, ५; अथ ४३, ६, ५;
 ६६, ३, ३; विध; -भुवे भाग्थि
 १, २, १ : ५; वीथ ३, १, ५; ३,
 ८; भाथ; -भुम्; भाथी १०,
 ९, ५; वाथी ४, १२, १०^०; १६,

a) 'मार्कि' इति पाठः । यन्त्रि. श्लोकः (छ. लीलं. भास्य. B.W. M.W. च) । b) वैथ १६. ।
 c) पाथे. वैथ १ स्वयं-उपागतः इति. द. । d) 'मार्क' इति पाठः इति यन्त्रि. श्लोकः । e) विप., नाप. । f) 'ण्णावा
 इति पाठः इति यन्त्रि. श्लोकः (छ. रूप. माथी ६, १, ५, ३२) । g) 'ण्णादे' इति म. (मा १७, ११) । h) उप. अर्थः । ।
 i) पाथे. पृ २०६-३ द. । j) = पुत्र-विनोप- । k) पाथे. पृ २०६-० द. । l) स्वयमुपादे
 इति जीवं. । m) पाथे. पृ २०६-० पु द. । n) अथ. । उव. । o) नाप. अथ. । वैथ १६. । p) पाथे.
 वैथ १ सुम्; ते ३, ६, ६, १ इति. द. ।

७,१, वाथी ३, ८, १५^a, माथी
 २,५,२,२९^a, वाथी १, १, ४,
 २१^a, वीण, अण ४८, १८^b,
 निप १,२^a, या १४,११४
 स्वायमुत्र^c-य या ३, ४^a,
 -यम् आनिष्ठ १, २,१:१८,
 वीण ३, १, २५, अण ११६
 ४५, ६४, -ये वीण २१.
 स्वायमुत्र नियोग-गेन धय
 ६१,१,२
 स्वयंभोज्य-अण भाण्ड, २२ १०
 स्वयंभयित-तम् आपथी १८,
 ११,५, द्विथी १३,४, १७, -ते
 वीथी १२,६ १
 स्वयंभूर्त्त-संम् आपथी १८, ११,
 ४, द्विथी १३,४,१६, -ते वीथी
 १२,६ १
 स्वयंभूत्त-नम् वीण ३२,१३
 स्वयंभूत्त-प्रम् १४-६
 ✓स्वर^d पाषा लुटा लम आक्षेपे
 पिसर(र)^e आथी १ २,३,५,३,२७,
 ११, १३^a×, आथी, वाथी
 १४, ५, ६^a, आपथी १, १८,
 ३^a×, लाथी २, १२, १०^b,
 सु १५, ५, पाण्ड १, १६, ४^a,
 आनिष्ठ १, ५, ४, २६^a, २,१,
 ४ ३^a, ३, ८, ३ २५^a,

माण्ड १, १७, ६^a, २, ८, ६^a,
 वा ४८,१८,१०८, निप १ ४,
 १२^a, या २,१४^a, ५,४, शुभ्र
 ४,४६^a, अण ३,७,२^a, पाण्ड १,
 १,२७,७,३,४, पावादे,३,१०८
 २सौय-या ७,२,४
 पिसर पति-तिम् उव् ६,१, -वी
 शुभ्र १,३ १^a.
 स्वयंभू-द्वय शुभा १,१६६
 स्व-वृष्ट^f-उस्व निम् ३,१२ ५
 स्वर-गत-गानाम् च'अ ३०
 २५, ३८ ४.
 स्वर-गमन-पाण्ड ७, ३,४, -नम्
 निम् ४, ११ १५
 सौयगमनिक-पा ७,३,४^a
 स्वर-विण^g-विण् वाथी १४,४७,
 २^a, आपथी १६, ३०, १^a,
 वीथी १८,२० ३९, द्विथी ११,
 ८,४, -जितम् वाथी १४, ४७,
 १^a, -जिति वाथी १४, ८, १३^a,
 -जिते वाथी १८, १७, ३^a
 स्वनिद-दन्त्रबन्ध-अणो. वाथी
 १५ ११,१३
 पिसर ज्योतिष^h-विⁱ वाथी ६,
 १२,२३, जैथी १३ १८
 स्वयंभूर्त्त निधन^j-मानि
 जैथी ४ १

स्वर नि(<नि)पा^k-नम् वाथी
 २,२,४०, वाथी १,६,३६.
 पिसर-वा^l-दा आपथी १७, ५,
 १६, वीथी १८,२१ १७
 स्वर-वृ^m-दत्त या १०, १३^a,
 -दत्तम् पान्थी ५ २,३,८,१२,
 वाथी २, १,८,५^a, जैथी १४
 १९, मीत् १०,६,३
 स्वर-धुन(नीⁿ-अ)मम-सम-
 -न नि कण १,१०,१४
 ✓स्वयंभू^o-स्वयंभू^p-सुंय^q नाति २,
 ३,११^a.
 पिसर-व^r-यम् आपथी १, ५,
 १२^a
 स्वर-मात-नस्व अण २२,३, -नीणु
 अण २५२
 स्वर-लोठ-यम् अण ११६:६६
 पिसर-वृ^s-वत् माण्ड २,१५,१^a,
 -वाण् वा ६,३
 स्वयंभू^t-नी आथी ४,१२,
 २^a५^a.
 स्वयंभू^u-निधन^v-ने आथी ७,
 ७,२५
 स्वर-वि^w-पंक्ति आथी ४,१२,
 २^a, आपथी ७,१२, ७^a, माथी,
 -विण्: माथी ५, २, १३, १^a,
 वैताथी २५, २५^a, -पंक्तिम्

a) पामे वैप १ सुम् ३ १, ६, ६, १ टि ३ । b) = अन्तरिक्ष- । c) नाप (काण्ड विरोध-), व्यप ।
 अन्त्यायर्थे अण् प्र । d) ✓सुदरति [पले] BPG । e) = सुदर: विधेय टि ३ । f) स्तो^g इति पाठे
 उल्लम् (पावा ६,३,१०८) । g) पामे वैप १ स्वर गे १,१,५ टि ३ । h) पामे वैप १, १२१४ टि ३ । i) पामे
 वैप २, ३४ स्वर मात १४,१४, २५^a टि ३ । j) सपा तैआ १०, ४, १ सुवर इति पामे । k) सपा द्विष्ट
 २ ३, ९ सुवर इति पामे । l) सपा तैआ ६ ९ २^a सुवर इति पामे । m) पामे पृ ४८४ टि ३ । n) = उदर- ।
 o) पामे वैप १ ३ । p) वैप २, ३४ ३ । q) उ न्यास । r) वैप १ ३ । s) = एकाद विरोध ।
 t) = २स्वर ज्योतिष- (वैप १ ३) । u) पामे वैप १ गा ५, ३२ टि ३ । v) = साम विरोध- । वस ।
 w) = गण । x) पाम वैप १ स्वयंभू कौ १, ३७५ टि ३ । y) द्वितायर्थे यत् प्र । z) पामे वैप १,
 १२२८ म ३ । a') पाठ १ (सु १०, ६३, १५ पति इति पामे) । b') पामे वैप १ सुयंभूते ते ४४,
 १२,२,४ टि ३ । c') पामे वैप १ सुयंभूते ते ४४, १२, १ टि ३ । d') पामे वैप १ सुयंभूते ते ३,
 १, २ टि ३ । e') स्वयंभू > क्वनिपवा यनि (सु भे १,२,१५) ।

आपथी १७, १३, २; माथी १, ५, २, १४; वाथी १, ४, २, ५; द्विथी १२, ४, ४; ऋथा ८, १३; -पुंविदा वाथी १, १, २, ३; निम् २, ११; ३२; -विदि वा ७, २५; -पुंविदे माथी ६, २, ४, १८; कौम् ४, १; -विदी माथी ५, २, १३, १७.

पुंस्वर-पा (<सा) - या: शौच २, ४९; -पाम् ऋथा ४, ३९.

स्वश-चलस - क्षा: स्वस्व-चनत् - या: उत् ६, २१.

स्वर - (>स्वरायण-)

स्वर-१, २स्वरण-स्वरवत्-स्वद स्वरिक->स्वारिवय- पा.) पाग ५, १, १२८.

स्वरित-स्वद.

स्वरित: नाम ३०: ९.

स्वर - पाठ १, १०; -रव: आपथी ७, २८, २१; १४, ५, २०; द्विथी ६, ८, ६१; ९, ८, १५; -रु काठथी ५२; -रु: काथी १, ७, १६; आपथी ७, ३, ३; वीथी; -रुणा आपथी ७, १४, १२; माथी १, ८, २, २४; ३, १८; वाथी १, ६, ४, २२; ३, २, ६, २३; -पुंरुम: आपथी ७, २८, २; माथी १, ८, ६, २२; -रम् काथी ६, ४, १०; ११; ९, १२; आपथी; -रुम् वीथी १७, ११: ४; वाथी ३, २,

६, ४९; -रो: आपथी ७, २७, ३; वीथी २०, २७: १; ३१: १.

स्वच-चपाठ- लम् माथी ५, २, १३, ४; -ले आपथी ७, ३, ५.

स्वह-त्व- नवस्व मीम् ४, २, ३.

स्वह-रगत - नम् वीथी ४, ४: ८; १९; २०, २६: ३५x; माथी ५, २, १२, ११; -नव वीथी २०, २७: १४; २१, १८: २७;

-मेन वाथी १, ६, ३, १८.

स्वह-शकल - लम् वीथी १०, ९: ११.

स्वह-शास - स: वीथी ११, ४: १०; -सौ शुभ १, ३८x.

स्वह-स्वचिति - विन्नाम् वीथी १०, ११: १०; -सो आपथी ७, १४, १०; माथी ७, ११, १३;

द्विथी ४, ३, ३५; वीथी १०, ११: ९.

स्वह-होम - मात् माथी १, ८, ६, ११; वाथी १, ६, ७, २९.

स्वह-होम- मात् माथी १, ८, ६, ११; वाथी १, ६, ७, २९.

स्वह-होम- मात् माथी १, ८, ६, ११; वाथी १, ६, ७, २९.

स्वह-होम- मात् माथी १, ८, ६, ११; वाथी १, ६, ७, २९.

स्वह-होम- मात् माथी १, ८, ६, ११; वाथी १, ६, ७, २९.

स्वह-होम- मात् माथी १, ८, ६, ११; वाथी १, ६, ७, २९.

१५, ५; काथी २५, १, ११; वीथी ३, ३०: २३x; कौम् ९७, ८; वा १२, ४४; -कै: वा ११, १४.

स्वर्ग- पाठमो २, २, ५३; पावाग ५, १, १११; -मी: काथी १, १०, १०;

आपथी १६, २३, १०^१x; वीथी; वीथी १८, १७: २८; द्विथी ११, ७, ३१^१;

-मम् आथी १०, ५, १२; वाथी २, ९, ७; १०, १८, ८; १४, ३७, १^१x; आपथी; पुंविताथी ६,

१२; ७, ८; २७, ६; ९; -मैस्व आपथी ६, ९, ४१; द्विथी ३, ७,

६१; अग; -मात् आपथी ६, १३, ८; वीथी ११: २४; कैथीका १२९; निम्; -मात् आथी ९, ९, ८^१;

वाथी १६, १७, ६१; आपथी; -पुंमाय आथी १३, १४, ६; काथी २०,

४, ३३; २५, ७, ४०; आपथी; -मै आथी ११, ३, ५; काथी २०,

६, १५^१; आपथी; माथी १, ४, १, २६^१; -मैण वेताथी ३६,

३०^१; अगम १, १; -मैण आथी १२, ९, १६.

स्वर्ग-काम- म: आथी ४, १५, ८^१; ९, ५, १२; ७, ३४; ८, १७x; वाथी; आपथी २२, ५, १८^१;

-मम् आपथी १४, १४, १३

a) पाठे. वैप २, ३खं. अहह-> द्वे तैना ३, ७, ४, ३ टि. द.। b) इ २७६२ टि. द.। c) वैप १ टि.। d) पाठे. वैप १ क १, ११, २१ टि. द.। e) व्यु. पाठे. व वैप १ टि.। f) इ २७५८ टि. द.। g) समाहारे द्वय.। h) द्वय. उप. = स्वर-। चरणे पम् प्र.। i) परस्परं पाठे.। j) द्वय.। k) स्वह इति पाठे इति. गोप:। l) वत.। m) = वाथी ६, ३, १५। n) द्व. वीमं.। सर्वेण इति ऋण्यु. पाठे.। o) उपा. आपथी ३, १३, १; २४, १२, ६ स्वस्वा इति पाठे.। p) पाठे. वैप १ स्वर्ग: वै २, ७, १९ टि. द.। q) सन्तु = एषाह-विरोध-। r) पाठे. वैप २, ३खं. सुर्मै तैना ३, ७, ६, ५ टि. द.। s) पाठे. वैप १ स्वर्गात् प्रो १, ४३५ टि. द.। t) स्वमात् इति ऋ. ऋ. च.। u) पाठे. वैप १ स्वर्गे मा २६, २० टि. द.। v) पाठे. वैप २, ३खं. सुर्मै तैना ३, ७, ६, ५ टि. द.। w) इ २७५५ टि. द.। x) पाठे. इ २७५८ टि. द.।

-मरुत शशी १५, १०, १;
 शशी ४, १५, ११; २२, ८,
 १०xx; आपथी; -माः शशी
 १४, ६९, २; ७५, २; आपथी
 २३, ४, ५; ६, ३xx; बीथी;
 -मासाम् बीथी १६, ४:३;
 -नी शशी १४, ७३, २.
 स्वर्गकाम-पद्यकाम-भ्रातृप्यव-
 -न्ताम् काथी २२, २, १०.
 स्वर्गकाम यज्ञ- -शः निम् २,
 ३: १७; ७, ४: ११xx; -जे
 निम् ७, ३: २३; २४; ४: ५२.
 स्वर्गकामयज्ञ-य- -न्ताम्
 निम् ७, ४: १२; १७.
 स्वर्गकाम-सत्र- -ग्रम् निम् १०,
 ८: २२; १०: १.
 स्वर्गकामा (म-अ)यव- -नम्
 निम् १०, ११: १.
 स्वर्ग-चतु- -न्ताम् अथ ५८, ३,
 ११.
 स्वर्ग-जिगीषु- -यव. वृदे ६, १४१.
 स्वर्ग-निम्- -मिः आपथ २, २४,
 ५; हिम २, ५, १४०.
 स्वर्ग हार- -रम् आपथ १, १३, ६;
 हिम १, ४, २०; श्या १५, ६.
 स्वर्ग-नरक-फल- -लेषु आपथ २,
 २९, १; हिम २, ६, १४०.
 स्वर्ग-पुष्टि-संयुक्त- -ताः गाय ३,
 १२: ४, आपथ २, ३, १२; हिम
 २, १, ४३.
 स्वर्ग मही (य-ओ)द्वन्द- -नौ
 कीर् ६८, ४

स्वर्ग-मार्ग-पद्य- -देविष ८५, ४१.
 स्वर्ग-लक्षण- -गम् बीथ ३, २, १६;
 ३, २३.
 स्वर्ग-लोक- -कम् माथी ४, १५,
 ४१; वाथी ३, २, ५, ३५; निम्;
 -काः शशी १२, ९, १६; -कान्
 हिमि १८: १५१; -के आपथ ४,
 ४, २; संघ ८१; बीथ ४, ८,
 १२; विष २३, ६०.
 स्वर्गलोक-भाज- -भाजः विष
 ३, ४५; १९, ५.
 स्वर्ग-शब्द- -शब्दम् हिम २, ५,
 १६५.
 स्वर्ग-सद्- -सद्: विष ९९, १५.
 स्वर्ग-रिषत- -तान् वाप १६, ३७.
 स्वर्गा (ग-मा)दि- -दिभिः वृदे १,
 ४७.
 स्वर्गादि-फल-काक्षण- -गम्
 वेष १, ९, १०.
 स्वर्गा (ग-मा)सुद-धन-पुत्रा (म-
 २)प्र- -रीः वृदे १, ७.
 स्वर्गा (ग-मा)रह- -हः आपथ ६, २९
 स्वर्गा (ग-मा)धै- -धैः सु ३०, ६.
 स्वर्गिन्- -नीं वेष २८५; चम्पू
 २: ३४.
 स्वर्गो (ग-व)क, क्क- -कः निम्
 ५, ८: ३; -क्का निम् १०,
 १०: २; -क्काम् निम् ७, २:
 २४; -क्के निम् ५, ८: ३.
 स्वर्ग, स्वधि- पावा ५, १, १११;
 -मः शशी १२, ९, १७; बीथी
 १६, १: ५; ७; पाण, -रथे

आथी २१, २५, १२; बीथ २,
 ८, १; ३, ८, २८; विष १००, २;
 सुना ८, ३१; -गर्वा शशी ८,
 २५, ३; आपथी १६, ३०, १;
 वैथी १८, २०: ४६; हिमो
 ११, ८, ४; सुष २, ४५४६;
 -गर्वाम् वाथी ४, १४, १३;
 आपथी ६, ९, ४, बीथी ३,
 ६: १; ६; हिमो; -गर्वाव वाथी
 ४, १४, १३१.
 स्वर्ग-शब्द- -शब्दम् आपथ २,
 २३, १२.
 स्वर्-नात- , धामन- प्ररु. स्वर् द.
 स्व(सु-अ)र्धन- -नाः या १२, ४४;
 -मैः या ११, १४.
 स्व(सु-अ)र्धिस- -र्धिसिः या ११,
 १४; -र्धिसिः या १२, ४४;
 -र्धिसि कथ १, ९, ११.
 स्वर्-जित्- -प्ररु. स्वर् द.
 स्वर्ण- -गम् धामिण २, ४, ६: ५;
 ११: ६; ३, ५, ६: १८१;
 ७, ४: १०१; -णं धामिण ३,
 ५, ६: १७; अथ १, ४५, १.
 स्वर्ण-वार- -रः गाय ७, २९.
 स्वर्ण-मय- -येन धामिण २, ४,
 १०: १२.
 स्वर्ण-शकल- -कम् वेष २, ४, १.
 स्वर्ण-सहस्र- -सहस्र अथ ३५, ३, ६.
 स्वर्णो (ग-व)पहित- -तम् धामिण
 ३, ३, १: ४.
 स्वर्-विधन- -स्वर् द.
 स्वर्णीक- -कम् या १४, १११.

द) द्रव > वरा. । ह) स्वर्गकलेषु इति पाठः । ममि. शोध. (सु. माध्यम्, आपथ. व) । c) द्रव > पथ. (सु. केशवः) । d) = तीर्थ-विशेष. । e) वरा. । f) सया स्वर्गसदम् <> स्वर्गसदम् इति पाठे. । g) उप. वर्तते प्र. । h) वैष १ द. । i) पाथे. वैष १ स्वर्गी कथ ३९, ६ टि. द. । j) सया. का २, २, १ स्वर्गाय इति पाठे. । k) सु. B.N. । पर्वभिः इति लक्ष. ? । l) = शिरश्च. । <सु/कम् वा, मथ. (दु. शशी) देति शमा. । m) नाप. (सुनार इति नमा.) । n) पू. = परिमाण-विशेष. । o) = उदक. । p) सया. निष १, १२ स्वर्णीकम् इति पाठे. ।

स्वर्णाकर^१-रम् अप ४८, ७५१.

✓स्वर्त्^२ पाषा. घ्रा. पर. गत्याम्.

✓स्वर्द् पाषा. म्वा. आत्म. आरवाद्ने.

स्वर्-इग्- युनि- स्तृ द.

स्वर्-भानु^३- पाठभो २, १, ७१; पाग

८, ४, २९^४; -नुः शाश्री १४,

२९, २१; अप ५२, ५, ४; मा

१४, २१^५; -नोः शाश्री १४,

२९, २१.

स्वर्मातु-रष्ट- इम् वृदे ५, १२.

✓स्वर्य, १स्वर्य- रत्तृ द.

२स्वर्य- ✓स्तृ द.

स्वर्-यात- प्रत्तृ स्तृ द.

स्व(सु-अ)र्वा(रु>)ची^६- नो माश्री

२, ४, १, ३०१.

स्वर्-चिद्- प्रत्तृ स्तृ द.

✓स्वल्^७ पाषा. म्वा. पर. गती.

स्व(सु-अ)ल्लुक्त, ता- नस्स शंघ

२५०; -ताम् अप १, २१, ७;

३५, ३.

स्व(सु-अ)ल्प- न्यम् काश्री २९:

१७; वैशु १, २०: १४; -ल्ये

विध ९, १८; -ल्येन क्य २,

१०, ६; -ल्येषु वृदे ८, ८७.

स्वल्प-बीज- आनि प्रप ५९, १, १७

स्वल्प-बी(वं >)र्वा^८- योः वृदे

६, २१.

स्व(सु-अ)यका->स्वर्वाकि(रु>)

नो- न्यः वीशु ३, ९, २.

स्व(सु-अ)वस्^९- पा ७, १, ८३; पावा

७, ४, ४८; -र्वावस्^{१०} आश्री २,

१२, २; वीश्री १८, १२: ८;

-र्वावन् ऋषा ४, ६८; शुभा ३,

१२६.

स्व(सु-अ)वोचित- नम् आश्रिय ३,

६, ३: १२; ८, १: २५; वीधि.

स्वशुर्^{११}- पाठशु १, १९.

स्वश्व-चक्षस्- न्यनस्- स्तृ द.

र्वास्व(सु-अ)द्व^{१२}- न्यः शाश्री ५, ७,

४; वीश्री १८, १७: २३; अत्राय

६, ९; मा ५, १९; -श्वा आश्री

८, १२, ४.

र्वास्वधिय^{१३}- न्यम् वीश्री ४, ११:

२४; २४, ६: ९.

स्वक्ष्य^{१४}- अण्यम् आश्री १०, ८, ४^{१५}

र्वास्वसर^{१६}- रस्स काश्री १०, ४, ११;

माश्री २, ५, १, ८; ९; -रामि

अप ४८, ८९; १११; निघ १,

१; ३, ४; ४, २; मा ५, ४४^{१६};

अत्रा ३, ४, १; -रे आपश्री २१,

९, १५; शाश्री ३, २, २, १५;

द्विशी १६, ४, १३^{१७}.

र्वास्वसल्लिलागर्वा^{१८} द्विशी ११, ७,

४२.

स्वस्^{१९}- पाठ २, ९६; पा ६, ४, ११;

पाग ४, १, १०; ६, ३, ३३;

-सा वीश्री १७, ४४: १३^{१९};

१८, ४५: १; २; वैश्री; पाठ २,

२, ८^{२०}; -र्वासरः आपश्री ५,

११, ६; वीश्री २, १६: ३६;

शाश्री; अप ४८, ८२^{२१}; निघ

२, ५; -सारम् शाश्री १५, १७,

११; आपश्री १६, २६, ६^{२२};

१२^{२३}; २२, १३, २; माधुश्री;

-र्वाशुः आश्री ८, १२, ३; शाश्री;

-सूः या ५, १^{२४}; -र्वासा आपश्री

८, १८, १; वीश्री ५, १६:

१२; शाश्री ८, २१, ८; -से

कौत् ३४, २१.

स्वस्-स्व- न्यम् वृदे ८, ३०.

स्वस्-दुहितृ- न्यम्मात् पा १, २, ६८.

स्वस्-पति- न्योः पा ६, ३, २४.

स्वस्वा(सु-अ)दि-प्रहण- न्यम् पावा

१, १, ७२.

स्वस्वीय- पा ४, १, १४३; -मः

मानि १३१.

स्वस्ति^{२५}- पाठ ४, १८१; पाग १, १,

३७; ७, ३, ४; -र्वास्ते आश्री

२, १०, २१; ३, ७, ११; शाश्री;

माश्री ५, २, ६, १९^{२६}; माष्ट १, २१,

३^{२७}; ६९; वैशु १, ११: १८^{२८};

-र्वास्ति आश्री २, १०, ७; ४,

३, २; ५, ६; ५, ३, १४^{२९}xx;

शाश्री १६, १, ९^{३०}; काश्री; वैश्री

१३: ४^{३१}; सु १९, ६; माष्ट १,

६, ४^{३२}; २२, ११^{३३}; गोष्ठ ३, ८,

८; आपध १, १३, ९^{३४}; विघ ९०,

३; -स्तिः शाश्री ४, ३, २^{३५}xx;

शाश्री ५, ५, २^{३६}; १६, १०, १५;

काश्री; -र्वास्तिमिः आपश्री १३,

१८, १; २२, ७, ११; माश्री;

-स्तिम् शाश्री ५, ५, १; ८, १२,

३; काश्री ७, ५, १२; काश्री;

a) = १७६८. b) BFG. c) = ✓स्वर्त्. d) वैशु १६. e) द. पागम. f) सुभातुः इति BFG. महकमकरः शिवसं. च। g) वत्त. h) पाभे. वैशु १ मा ५, ६०, १ टि. द.। i) = स्वशुर्. j) वैशु १ निर्दिष्टयोः समावेशः द.। k) पाभे. वैशु १ मा १, १६२, २२ टि. द.। l) वृ ११२८ j द.। m) पाठः १ सल्लिलान् स्वर्ग्यान् इति संस्कृत्युः शोषपत्रम्। एषा. षाठ ३२, ३ आपश्री १६, २५, २ स्वर्ग्यान् इति पाभे.। n) पाभे. वैशु २, १८ मंत्रा १, ६, २७ टि. द.। o) पाभे. वैशु १ स्वस्ति ते २, ४, ७, १ टि. द.। p) पाभे. वृ २६७९ d द.। q) पाभे. वृ २६७९ BFG द.। r) पाभे. वृ २४१८ k द.। s) वामि इति पाठः १ वनि. शोषः। t) वामि, मत्स्य> इत्यन्त्य इति BFG.। u) एष. आश्रिय १, १, १: ६ प्रत्तृ. स्वरपयनम् इति पाभे.।

-स्त्रेः वैताश्री १३, २; वृदे ७, १०५; -पुस्त्र्या शश्री १२, २१, ६, शपश्री ३, १३, १०; १६, २१, १; २४, १२, ६; वीथी; -स्त्रिये शश्री २, ५, १०५; -स्त्रिये शश्री २, १, १ : १५^०; सौवस्त्रिक- पा ७, ३, ४.
 १स्वस्ति-क, का^० - कः अण ७०, ६, ३; -कम् अण १, ४५, ७; -का अण ७०^३, २, ३.
 स्वस्तिक-वर्ण^० - पा ६, ३, ११५.
 स्वस्त्रिका(क-आ)म-घन^० - नैः अण ६४, १, ७.
 स्वस्त्रिकाम- अः शश्री ५, २, ७, १३; २५; वैश्री २, ८ : ९.
 स्वस्त्रिणा^० - अः शशा १८, ८.
 पुस्त्रस्त्रिणा^० - नाम्^० वीथी ६, १६ : १०; वीथी ४, ४, १०.
 स्वस्त्रि-घोप- लेण वैथ ३, ४ : ११.
 पुस्त्रस्त्रि-श^० - आः शपश्री ३, १२, १^०; वीथी; शश्री ३, ११, १^०; वैथी, हिथी २, ६, १३^०.
 स्वस्त्रि-पुष्प^० - ग्येपु कण ७३, ४.
 पुस्त्रस्त्रि-मत्- ममा^० शश्री २, १०, ७; वीथी २७, १४ : ६.
 स्वस्त्रि-योग- ने पाता २, ३, १६.
 स्वस्त्रि-नाक्ष- न्यम् शश्री २, ४, ७ : १८.
 स्वस्त्रि-वाचन- पावा, पावाण ५, १, १११; -नम् वैथ ३, २२ : १४; ५, १३ : २६; जैथ ३, २३ : १३; अण ८, १, ३.

स्वस्त्रिवाचन-कर्मन्- मणि आज्यो ७, १.
 स्वस्त्रि-वाच्य कौथ १, १७, ६; १८, ४; २, ६, ३×४; शांथ.
 स्वस्त्रि-वाह^० - वाहम् या ५, २६^०.
 स्वस्त्रि-वाहन^० - नम् शपश्री १, ६, ११^०; वीथी १, ५, ४^०; या ५, २६.
 स्वस्त्रि-सूक्त- कम् आश्रिण २, ४, ६ : ४०; -केन वैथ २, २ : १७; ४, १० : २०.
 स्वस्त्रिय(स्त्रि-श)यन^० - नः जैथ १, १२ : ५१; ११ : ११; अण^० ५, ३, ५; ३२, १, ११×४; अशा २४, १^०; -नम् शश्री १६, १, १४; १०, १५; सु १२, ५; अणु; पुशश्री १, १, १ : ६; ४ : २८; ४४; णिथि^० १, १, ६; ७, २२; ८, ७; -नस्त्र गोथ १, ४, २०; -नानाम् कौथ ४, १, ६; -नानि अण २, ३, १३; ४, ६, १८; कौथ; -नाथ शश्री ४, १७, १; या ५, २८; -ने अण ४, ८, ३४; वृदे ८, ८७; -नेपु भाण ३, १५ : १५; कौथ ८, २; -नैः कौथ १३२, ७; अण ४, १, १६×४.
 स्वस्त्रियपनी^० - नी वीथी ६, १६ : १०^०; शश्री १०, २०, १^०; वैथी; अण २, ७, १२; -स्त्राम् शश्री २, १०, ५.
 स्वस्त्रियन-काम- अः जैथ १,

११ : १८; कौथ ५२, १४; २१^०; अण १, २७; ६, ४×४.
 स्वस्त्रियन-क्रिया- या अण ६८, २, ६१.
 स्वस्त्रियन-तम- अः शांथ १, ३, २.
 स्वस्त्रियन-प्रवाद- दानि निवृ ४, १२ : २१.
 स्वस्त्रियना(न-आ)दि- न्यः अण ६८, २, ६०^३; अशा २४, २.
 स्वस्त्रियना(न-अ)भवा(अ-अ) पराश्रित-शर्मवर्मा-देवपुरीय-चित्रागण-पाश्रीवत^० - नानाम् अणु ३.
 स्वस्त्रियना(न-अ)थं- थंम् शश्री २, ५, ३ : ४३; वीथी; -थं निवृ ४, १२ : ३२.
 स्वस्त्रिय(स्त्रि-श)सङ्गति- रतिः अण ३६, ८, १.
 स्वस्त्रिया (स्त्रि-आ) श्रेय (वया.)^० - न्यः अण ५२, ९, ५; अण २, ५, ५०; अण १, २४६; -यम् लाथी ३, ३, ६^०; सु १२, ६^०; अण ३, ११, २^०; कणु २६, ४५^०; वीथी २, २ : ३३; १०^०; -यस्त्र अण २, ४५७; -ये शश्री ६, ९, ६^०.
 स्वस्त्रिया(स्त्रि-आ)दि- न्दि शश्री २, ३, ३ : २०; -दिः वृदे १, ३२.
 स्वस्त्रिया(स्त्रि-अ)ज- नाम् कौथ २५, ३६; २६, २८.
 १स्वस्त्रि-क- स्वास्ति- द.

a) पाणे. पृ २७६३ ० द. 1
 b) पाणे. पृ २७२७ 10 द. 1
 c) = स्वस्त्रिकविद्, तद्वत्. 1
 d) वत्. 1
 e) यत्. > वत्. 1 'कास्' इति पाठः ? यनि. शोधः. 1
 f) एष. = स्वस्त्रिय-यन. 1
 g) म्, पाणे. च वैथ १ द. 1
 h) वैथ १ द. 1
 i) एकएत्र पाणे. वैथ १ सोमपुः अ १०, १५९, १ टि. द. 1
 j) = मन्त्रागण-विशेष. 1
 k) पाणे. पृ २७६५ ४ द. 1
 l) स्वष्ट' इति पाठः ? यनि. शोधः. 1
 m) द्या. (पृ. अण ३२, १, ११-१५; १८-१९). 1
 n) स्वय. (स्त्रि-दि). 1
 o) = आदर्श-1 वृ. भाष्यम्. 1
 p) = एष-विशेष. 1
 q) = वृच-विशेष. 1

रस्वस्तिक^० -क. माशि २, ११,
शाशि १, ४४

रस्वस्तिक^० - > ष्क सपात्रक द्वि-
हृसरा (र-म) दूषमा-पायस-यून
विधिवान-भक्ष फल--ले अप
१८, १, ११

स्वस्ति-काम- प्रम् स्वस्ति- द

स्वस्ति^० -तम् अप १, २६, ३१

स्वस्ति दा- स्वस्ति- द

स्वस्तीपकि^० - कि वौशीप्र १० ३

स्वस्त्य^० -स्व्या वौशीप्र ४५. ५.

स्वस्त्ययन- प्रम् स्वस्ति- द

स्वस्त्ययलेपी अप ४८, २२१

स्वस्त्याच^० शाश्री १२ २१, २

स्वस्त्याश्रय- प्रम् स्वस्ति- द

स्वा^० वेज्यो १८

स्वांस- प्रम् १२व- द

स्वा(सु आ)गत- पाग ७, ३, ७,

पावाग ४ ४, १०, -तम् वौष्ट

२, ९, २१, अप ९ ४, ३ शध

२०३, गौध ५, ३५, -तेन अप

४४, २, ६

स्वागतिक- पा ७, ३ ७, पावा ४,

४, १

स्वा(सु-आ)गमन- नानि वा १२, ४२

स्वा(सु आ)ग्रयण^० - ण वौशी ७,

७ ६^३

स्वा(सु-आ)प्रायण^० - ण माश्री

२ ३, ५, १^३

स्वाङ्गाङ्गे^० शाशि १, २, १ १८

स्वा-कृत^० - न^१ काश्री २, ४, ३३,

आपश्री १२, १०, १३, काश्री

स्वाङ्ग- प्रम् लङ्- द

स्वा(सु आ)चान्त- ष्त विध २१,

१, ६५, १, -न्तान् विध ७३, २

स्वा(सु-आ)चार^० - नान् वौशी २, २,

१२.

स्वा(सु आ)च^० ष्क > स्वा (स्वा-

२क)क^० - कम् वेताश्री १०,

५, कौष्ट ५४, ६^३, अम ७, ३०

स्वा(सु-आ)तत^० - तम् या ६, ३३

स्वातन्त्र- णवस- १स- द.

स्वाति, ती^० - पाठ ४, १३१, पा

४, ३, ३४, -तये शाष्ट २, २६,

१३१, अशां १२, २, -०ति

अशां ३, ३, -ति अप १, १, २,

२-१, १, ११, ३^३ ४४, -पतिवा

अप १, २९, ३, ४४, ३, अशां

९, ३, -तिम् अप १, ५, २, ७,

५, अशां ३, ३, -वी वौष्ट १, १,

२०, वेज्यो ३६, -ले अप १,

१०, १, -वी पाठ १, ४, ७,

आपष्ट ३, ४, अप

स्वाति विनाशा- ले भाष्ट २, १८ ६

स्वाति-सपाठ- तम् अ ५०, ९, ५

स्वातिकारी^० - रीम् पाठ २, १३, ९

स्वात्त- ✓सद् द

स्वात्तमाविनायकर्मणि अज ५ २४

स्वादन- पदित- ✓सद् द

स्वा(सु-आ)दित्य^० - रयम् काश्री

२३, ३, १, हिश्री १७, ७, १०,

-स्वा शाश्री १, ६, २, आपश्री

२४, १२ ६

स्वादिमन्- पदिष्ट- प्रम् ✓सद् द

स्वाधर्म्य- १स- द

स्वा(सु-आ)घी^० - धिय भाष्ट १, ८

८^०, -वियम् तैत्रा ३, ५^०, -घी

आपन २, ११, २१, वा ४, २४,

-ष्य पाठ २, १, ९^०, अष्ट

२ ४५

स्वाधीयस्^० - न्य^० आपष्ट २, २१, १९,

हिध १, ८, ३८

स्वाध्याय- प्रम् २स- द

स्वाध्यायिक- १सध्वर- द.

स्वान- ✓सद् द

स्वान^० - ०न^१ काश्री ७ ८, २२,

आपश्री १०, २६, १५, वौशी

स्वाना(न आ)दि- वीनि शुभ १,

२८१

स्वानो(न-उ)तर- नाभि शुभ २, २१

स्वानायन- स्वानि- २सल- द

स्वान्त- ✓सद् द

स्वापतेय- १स- द

स्वापन- ष्यद्- ✓सद् द

स्वापिदि- (> णीग- वा) पाग

४, ३, १३१

स्वा(सु-आ)त-घचन- ०न मा

१०, ७

स्वाम- ✓सद् द

स्वाभाविक- ष्य- १स- द

a) = हस्ताकार-विशेष । b) = [अस्वादि-साहचर्यात्] पिठविकार-विशेष [तु एक] । c) वैप १ द ।
d) ध्यप (श्लेष) । e) शोषार्थं तु स्वस्त्या वैप १ शी २०, १२८, ११ टि । f) = तादि-नचद- । g) तु
पागम । h) पाशे वैप १ स्वाप्रयण टि द । r) पाठ १ काण्ड काण्ड इति शोष (तु सम वौष्ट ३, १, २५) ।
j) पाशे वैप १ स्वाङ्कृत गा ७, ३ टि द । k) वस । l) स्वतम् इति पाठ १ यनि शोष (तु यवा शी
७, ३१, १ ३० च) । m) णि इति पाठ १ यनि शोष (तु वैप १, २१ (१) b) । n) = देवता विशेष ।
o) वैप २, २४ द । p) पाशे वैप १ स्वाध्य ऋ ३, ८, ४ टि द । q) पाशे वैप १ स्वाध्यम् टि द ।
r) = ताधीयम् । षकारोपजन वा णि इति मान्यम् । s) वा [श्री १, १६, १] स्वाधीन इति पाशे । t) पाशे
वैप १ सुपाक् टि द ।

स्वा(सु-आ)भू- सुवम् आपथी
 १६, ३५, ५, वाथी २, १, ८,
 १६, द्विथी ११, ८, २३.
 स्वामिन्- प्रथ्. १स्व- द्र.
 स्वा(सु-आ)ज्ञात- नम् नाधि १५,
 ५, नाधि २, ८, ११
 स्वा(सु-आ)ज्ञाय-> व्यप्- व्यम्
 पाधि २६
 स्वाम्य- १स्व- द्र
 स्वा(सु-आ)यत्- नो कप्र २, ५, १६.
 स्वार्थमुय- प्रथ् स्वय- द्र
 स्वा(सु-आ)यस- न्सा: अक्ष १०, १
 स्वा(सु-आ)युध-> स्वायुध-पृथ्-
 -धृक् कप्र ३, २, १५
 स्वा(सु-आ)युध- -घाय आपथी
 १७, ११, ४, -घास: वस् ३, १.
 स्वायुत्- १स्व- द्र.
 स्वा(सु-आ)युत्- युषा आथी
 १, ३, २३, आपथी १०, २७, ९,
 वीथी ६, १५ १७, माथी.
 स्वाय- नम् अप ४८, १०६१.
 स्वाय- नमिवा, सामिक- ✓१३
 (वषा) द्र
 स्वायशरणि^१ आथ २, ४, १४१.
 स्वायराज्य- १स्व- द्र
 स्वारापण- १स्व- द्र
 स्वारिक्य- स्वरिक- द्र
 स्वायह- १स्व- द्र
 स्वायसन्निभ^२ मा^३- भा
 थप ६४, १९
 स्वायर्थ- १स्व- द्र
 स्वाय- ✓स्व (वषा) द्र.
 स्वा(सु-आ)युज्- -यृक् अत्रा ३,
 ४, १

स्वा(सु-आ)युत्- -युती आपथी
 २, १३, ३, माथी २, १३, ३,
 द्विथी २, १, १७.
 स्वा(सु-आ)युत्- -येषु निस् ८, ६:
 ३३.
 स्वा(सु-आ)वेश, शा^४- -श
 आपथी ७, १, १०, वीथी ४, ४
 १७, माथी, -घा या ११, ४६
 स्वा(सु-आ)यिर्- > शिराम्-सकं-
 -कं जैथीप ८, निस् ६, ९:
 ७, ७, ९: २३, ९, २: ३२.
 स्वायुरस्वावामी^५ आथी १२, २१, २
 स्वायुस्य- १स्व- द्र
 स्वा(सु-आ)सद्- -सत् अक्ष १६, ४
 स्वा(सु-आ)सन- ने वाथी ७, ४,
 २७, वैथ १, १० १०; -नेषु
 वाथी १२, ४, १३.
 स्वासस्थ- स्व आपथी १०, ३,
 ८^६, -स्थ आथी १, ४, ५, वीथी
 १, १३: १८, ६, ३: १७, वैथ,
 -स्थे अथ १८, ३
 स्वा(सु-आ)स्तीन- न विष ६२, ५
 स्वा(सु-आ)स्तीर्ण- -र्णं आथ २, ३,
 ७^७, -र्णं विष ९०, ७.
 स्वास्य- प्रथ् १स्व- द्र
 स्वाहा^८- पाग १, ४, ५७, ६१, -पुंहा
 आथी १, ३, १४, ५, २४^९xx,
 वाथी, द्विथि १९ १०^१, कप्र
 १, १, ११, अप ४८, १०२^१,
 अथी १४, २, निष १, ११^१,
 या ८, २०^१, -हावाम् वृदे ३,
 १०, -हाम् शेष ११६ १८
 स्वाहा✓कृ, पा १, ४, ६१, स्वाहा-
 करोति वाथी ८, ५, ३३, आपथी।

३, ६, ७, वीथी, स्वाहाकृपात्
 पाठ २, ९, १६, कप्र २, ८, १४.
 स्वाहा-कार- -र: शीथी १, २,
 २२, वाथी ४, ४, १५, १६, ४,
 ४४xx; वाथी, -रम् आपथी
 २, १७, २, वीथी २०, १३:
 ६xx, माथी, -रस् अक्ष ४,
 १५१, -रा. वीथ ३, १०, ५,
 -रात् वीथी २५, ७: २, माथी
 १, ३, ५, २१, -रे आपथी ३,
 १३, ३, वीथी ७, ११: १३, द्विथी,
 -रेण वाथी २, ६, १३, वाथी
 ३, १२, १७, आपथी, -रे पाठ
 २, ९, २, आथिष्ठ २, ३, २: ७,
 ३ ९, ३: ४
 स्वाहाकार द्विथी (व>)
 पा^{१०}- वाम् वाथी २, ३, ९,
 लाथी १, ७, ९.
 स्वाहाकार-प्रदान^{११}- न
 आपथी २४, ३, ४, आपथ ७, ५,
 -ना. वाथी १, २, ७, ६, १०,
 २४, पाठ २, १७, १२
 स्वाहाकार वत् वीथ १०,
 १, २३.
 स्वाहाकार-व(व >)ती-
 ती माथी १, ३, १, ३१, अप
 ३०^{१२}, १, १६.
 स्वाहाकार वपट्कार-म-
 स्कार- -रा कप्र २, ३, १२.
 स्वाहाकार-वपट्कार-प्रदान-
 -ना वीथ १, २०.
 स्वाहाकार-धुति- -वे अक्ष
 १, १५६.
 स्वाहाकारा (र वा)म्, न्ता^{१३}-

a) वैप १ द. । b) लक्ष्मणाय वत् प्र. । c) शिर-नामन् । d) स्वारा क्ष^{१४} (कोटि लुगु) इति
 PW. DC. 011, स्वा स्थानि इति हरदत्त (वृ १३०) । पाणे. वृ ४८४ d द. । e) विष (विशुत्-) । f) वैप
 २, १४ द । g) वीथ वैप १ स्वायुरस्वावामी टि द. । h) पाणे, वैप १ स्वावेशा-> -शाम् टि. द. ।
 १) स्वा(स्-आ) इति नारायण. । १) पत्. ।

-न्तम् वाधौ १, १, १, २९, वायु
१, ५ -न्त्या वाधौ ३, ३, ११,
वाधौ १, ११, ११, -न्ता वाधौ
१, १, १, ५५, वाधौ १, २, १०,
वाधौ १, २, ६, -न्ताभि माधौ
१, ५ १, २४, ४, १९×५,
मायु, -न्तेन भाधौ ३, ९, ५,
माधौ १, ७, १, ४६, -न्तै
आधौ १, ११, १०, काधौ १५,
४, ३७, आमिष्ट

स्वाहाकारा(र अ)वसान-
ने अय २४, २, ४

१स्वाहा कृत, ता- -त. आधौ
४, ७, ४, शोधौ ५, १०, २३,
आपधौ, -तम् आधौ २, २, १८,
आपधौ ३ २० १, १४ ३०, ५^६,
बोधौ, -उत्थ आधौ ४, ७, ४,
शोधौ ८ १५ ११, आपधौ,
-ता आपधौ २, २१, १, ३
११, २, बोधौ, -ता काधौ
१५, ७ १६, आपधौ १०, १३,
१×५, बोधौ, आमिष्ट १, ६, २
७४, -न्ते काधौ ६, ६, २६,
शुभ १ ४००

स्वाहा कृति- उय अय ४८,
१३३, अय २, १, १३, वृदे,
या ८ २०कृ, -तिभि माधौ
१०, ८, १०×, साधौ ९ १०, ८,
-तिम्य साधौ ३ ४, २ शोधौ
५, १८, २१^६, काधौ -ती
वाधौ ६१, वृदे २, १५०,
-तीम्य आपधौ ७, २०, ४^{१६},
बोधौ

स्वाहाकृति-श्रिय- ये बोधौ
२५, २४ १५, -वेण बोधौ ११,
५ ६, १५, ३१ ५×५
स्वाहा कृत्य भायु २, ३२ १८^१
स्वाहा(हा अ) त, म्ता- म्ता दायु
१, १, १९, -न्ताभि कौष्ट ४,
११, -न्तेन आमिष्ट ३, १०, ४
१५

स्वाहा प्राण-(>कक- वा) पाय
५, २, ६२.

स्वाहा स्वधा- धायाम् विध
२९ १५

स्वाहो(हा क)र्ष्यै(र्व-ए)कवा
क्यक^६-के भाशि १०७

१स्वा(सु वा)कुत्- -तम् भापधौ
१६ १५, ५, वाधौ २, १, ८, १६,
द्विधौ ११ ८, २३, या ८, २, १४

स्विका- १त- द

स्वि(सु इ)त- १ते^६ काधौ ४, ५, ३,
वेताधौ १३, १८

स्विद् १आधौ ३, ८, १, १०, १ २^६,
शोधौ, या ८, ३, १०२, पाय
१, ४, ५०^६

✓स्विद्^६ पाषा भ्या आत्म लेहन
मोषमयो^१, पर अन्वक्त शब्दे,
दिवा पर यादप्रक्षरण, स्वेदमित
अय ६५ २ ४

स्विघाव काधौ २५ ११, २९

स्विष्ट- न्त बोधौ १८, १३ ६,
कुप्रा ६ २६^१

स्वेद- द विध २२ ८१ -दम्
आपधौ १०, १४, १, बोधौ २८,
९ १९ बोधौ २३, २ ६

स्वेद अवन- वायु कौष्ट ४७,
४३

स्वेद वस्तु- म्ताय अय ५७,
४, ४

स्वेदा(द अ)कृत(त>)ता- ता
कौष्ट ४७ ४४

स्वेदन्- ना अय ६८, १, ९

स्वेदित-, एव- वा १, १, १९

१स्वि(सु-दम्)>धामा- ध्या कौष्ट
१, ५, ८

१स्वि(सु इ)ष्ट एा- १^६ आपधौ ४,
१६, १५, भाधौ, -ष्टम् १आपधौ
३, १, २, १२, १^२×५, काधौ, स,
माधौ २, ५, ४, १७^१, -१^६टा
आपधौ ३, १०, १, बोधौ १ २०
०१, माधौ, -ष्टामु वैष्ट १, ९ ७,
-१^६ष्टम्य वाधौ १, ३, ७, २०

स्विष्ट कृत्- -कृत्य काधौ १, ८,
७^१, २, १९ २५, वाधौ, क धौ
५, ९, ८^६, ११, २४^६, बोधौ
१०, ५९ ७^६, वाधौ १, ७, ५,
२२^१, पाय १, ५, ३, बोध ५,
११, -कृत्य आधौ १, ५,
२७×५, शोधौ, भापधौ १४,
१९, ४^६, द्विधौ १५, ५, १८^६,
-कृत्य काधौ १, ६, ३^१, २,
१, २३, शोधौ, -कृता वाधौ
३, ५, ५, ६, ५, २५ काधौ
६३, १३५, बोधौ, द्विधौ २,
२, ४४^६, -कृति काधौ ३, ६,
११, शोधौ ४, ७, ३, भापधौ
१९ २१, ५ बोधौ, दायौ १३,
२, १^६, कौष्ट २०, ७, १५^६,

a) पाभे वैष १ ऋ १०, ११०, ११ टि द । b) पाभे वैष १ स्वाहाकृतीम्य णि द । c) मधो क्त । d) वस > वस । e) वैष १ द । f) पाभे वैष १ सुवित्ते का ५, २, ३ टि द । g) द्रु पायम । h) वा ३, १, ५५, ८ ३, ६२ पराकृ द । i) वृ १५९ ऋ द । *मोहनमोहिर्येके । j) पाभ वैष १ काठ ३०, ६ टि द । k) = वायु शिठेद । l) पाभे वृ २५५८ १ द । m) पाभे वृ १५५० वृ द । n) वय लाधौ ५, २, ५ स्विष्टकृते इति पाभे । o) 'इति स' > 'इदमस' इति जीव प्रयास ।

-कृते वाथी छ १९, ११, २०,
५,६ आपथी, पाण्डु १२, १०,
-कृतौ वाथी छ २०. ५१,
माथी ५ १, ३, २०१, वैथी,
-हृदम्य काथी २०, ८, ८१,
-कृतयाम् वाथी छ २० ४१
सौविष्टकृत्- कृत् आण्ड २,
३,४

सौविष्टकृत^b- वन् वाथी
६ ८, १९, काठथी ६३, १०७,
वाथी २५, ३ १८, हिथी,
-वाट कौष्ट छ, ८, -नानाम्
आपथी छ २४, ५, काठथी ६६,
कौष्ट छ ५, ७, -तानि आपथी
छ २२, ६, २२, २०, १४, वाथी
२४, २८ ८, वैथी, -ताय
आपथी १५, ३, ६, माथी ११,
२, २७, वैथी, -ते हिथी छ ४,
५०, काण्ड छ ८, २, -तेम्य
माथी ३, १, ५, हिथी २, २,
१३, -तेषु आपथी छ, २४, ६,
९ १९, ८, वैथी १०, १९ ११,
२०, ३८ १, हिथी १५ ८, २१

सौविष्टकृती- ती
आथी २ १, २१, आण्ड २, ४,
१५, कौष्ट १, ११, ५x५, काण्ड,
-तीम् आण्ड ३, १, २ ९,
आण्ड २, ७, हिण्ड, -त्वा
कृतय ३, ९

सौविष्टकृत स्थान-
-नाण्ड जेण्ड १, ३ १९
स्विष्टकृत् चतु (र्थ >) वां^d-
-वांम्य^e आण्डथी ६, ३०, १६,
आण्ड १२, ७

स्विष्टकृत् चतु (र्थ >) वां^d-
-वांम्य^e वाथी ३, १२, १७,
वाथी २४, ३३ ६, २८, ५
५, माथी ६, १८, १३, वैथी
८, २ १५, हिथी ३ ८, ८६,
कौष्ट ३ ५, १, पाण्डु ३, ८, १,
माण्ड ३, ३ ४

स्विष्टकृत्-रु (< थ) पञ- गात्
गीत् १२, ३, ६
स्विष्टकृत्-रु (< थु) ति- ते
काथी १५ ४, २०

स्विष्टकृत् पञ (>) मी^d-
-मीम्य माण्ड ३, ३ ४
स्विष्टकृत् प्रभृति- ति काथी
५ ५, २०, १२, ५, ११, आपथी,
आण्ड २ ५६ २१^f

स्विष्टकृत् प्रभृति-वत् आण्ड
१, ७, ४ ११
स्विष्टकृत् प्रवाद- दे माथी ५,
१, ४, १४

स्विष्टकृत् समावाय- ये वाथी
५, १९, २

स्विष्टकृत् स्थान- नानि वाथी
२०, १९ २०, -ने माथी १,
३, ५, ६, ७, ४ ४०x४

स्विष्टकृत् अनुग्रह- व
वाथी २०, २४ ३०^g, -णम्
काण्ड ५३ ४

स्विष्टकृत् अन्त- न्ते वाथी
२०, ८, ८, २५, १०, १६
स्विष्टकृत् अन्त, न्ता^h- न्त्वा
आण्ड १, ३, २ ४२, हिण्ड २,
१८, ७ २०, ९, -न्ता वाथी ८,
११ ११, -न्तानि वाथी १, १

१, ५१, -न्ते वाथी १, ७, ४,
४५

स्विष्टकृत् अर्ध- अंम् आपथी
२० १९, १०, हिथी १४, ४, ३४,
-थे आथी ६, १३, ७, आपथी
८, ८, ८, १५ २०

स्विष्टकृत् अर्धवाद- दस्व मीत्
३, ५, ४

स्विष्टकृत् अर्धदान- नाट वाथी
१, १, १, ३५

स्विष्टकृत् आण्डभाग- नौ काण्ड
२५, ३६, छ ७ १०

स्विष्टकृत् आदि- दि आथी
छ, ८ ८, काथी ५ ८

स्विष्टकृत् आहृत्- अहृत् गोण्ड
३, १०, ३३, काण्ड ३, १०, २

स्विष्टकृत् अहृत्, अहृत्- अहृत्ⁱ
वाथी ३, २०, १३, १५ २, १७,
१३, ८, आपथी १३, १, १४,
२४, ४x४, १८, ६, ११^j माथी
३, ५, २^k, वाथी ३, १, २,
३१^lx४, वैथी, -थे अण्डाण्ड, ९

स्विष्टकृत् देवता (ता-अ) म्यव-
-न्ते मीत् १०, ४, १२

स्विष्टकृत् धर्म- धर्म काठथी
३६, काण्ड ६२ ६

स्विष्टकृत् भाग- ना कौष्ट छ ५,
४१

स्विष्टकृत् वत् काथी १, ६, ४,
३ ४, ३ ६, ७, २०, आपथी

स्विष्टकृत् वनस्पति- त्यो काथी
१९ ४ ३

स्विष्टकृत् वनस्पत्य (ति अ)
न्त- -ने वाथी २० ८, ४, २६,

a) वाणि (< सौविष्टकृत-। b) विप नाण्ड । सास्यदेवतावर्षे अण्ड प्र । c) = अण्ड विशेष- इति
दुर्वासावर्षे । d) वण । e) परतर पाने । f) *कृतय प्रभृत् इति पाठः । १) वनि शोध (तु पूर्वे स्थलम्) ।
g) नाण्ड (वा-प्र-) । h) वाथी पाठ । i) यमाहरि ह्य । j) पाने इ १६२६ षट् । k) *ण्डाण्ड इति
पाठ । वनि शोध (तु वण वाथी प्र) ।

१,१३, २५, १०, १४.

स्विष्टकृद् विकार- -रः बौधो
२७, १४. २५, -रे आप्तो २४,
४, १८.

स्विष्टकृन् दिग्द- -दे शोभो १,
१६, १०.

स्विष्ट-कृत- -ने साधो ५, २, ५^०.

स्विष्ट-व(त् >)ती- -तीम्याम् वीर
१, ६, १६, -रयो बौधो १३, ४३:
१२; १८, १८: २ २८, ३ २९.

स्विष्टा/कृ >स्विष्टा-कार- -र
वैर १, १९ ४, -रम् वैर २,
१२: १७, २५, ३, १०: ५,
१९ ४xx

स्विष्टाकारा(र-भ)म्- -रम्
वैर ३, ११: २^०

२स्विष्ट- -दा^० बौधो १७. १४

सौविष्टि- -र्य, बौधो ३: ९

१स्विष्ट(स्व-इ, स्विष्ट- -रि वाधो १,
१, ७, २०, -रिम् वाधो १०,
३, २२, बौधो ८, ११: २, १४,
५: १६, -रि वाधो १, ३, ७,
२०, कौश ५, १३^०

स्वी/कृ- -स्वीय- १ख- ४

स्वी(स्व-इ)म्^१

√स्वु(पथा)^१ पाथा भ्वा पर शब्दे-
पतापयो, स्वरति अण ४८, २०^०,
तृनिष २, १४^०, ३, १४^१, शैशि
१८८, नाशि २, ३, ४, स्वरम्भि
शाधो ११, १२, ४^०
स्वयंते अण ३४, १, ३, मन्त्रा ३,

१७, तैपा २०, २, ३, शौच ३,
१७, शैशि १२४xx.

स्वयंते निम् ७, ११: १०
स्वयंते तम् ८, ८.

स्वायंते याशि २, २६, स्वायंते
माशि १४, ८.

२स्वर(पथा)^०म- पाग २, ४, २१,
६, ३, १०८^०, ७, ३, ४, पावाय ५,
४, ४४^०, -०र निष २८, ४६,
-र. आधो १, ११, १५^०, ५, १५,
२३, माधो २, ११, १९, वाधुधो
४, १५ ७, जैश्री ११: १८^०,
जैश्रीका १२६^०, जैश्री ३, ४,
२, ४, १, ६, साधो २, १, ५^०,
७, १०, ५, निम् १, १२, २, ११,
२, ८^० २९, ३, ३^० २६, कर्षण
१, २१: १०, १२, अण ४८,
१०२^०, वाध १३, ४६, श्रुदे
८, ११२, ११६, ११७^०, ११८^०,
११९, निष १, ११^०, मन्त्रा
१, ५, ३०, ३, ३, ११, २४, ४, ८०,
१३, ३५, १८, ३२, श्रमा १, १९,
११७, ३, १३१, ४, २५, श्रत
२, ५, ५, ५७, १२, अण १, १,
२०, शौच १, ४, १३, शैशि
१७, १८, १९, ५८, १२७, १५८,
१९३, २३४, ३४३, ३४७, ३४८,
माशि १, १२, २, १, ५, ३, २,
५, ११^०, ६, १^१, ३, ९, याशि १,
२५, ४९ ६९, ७०, ८१, ८६,
८८, ८९, ९०, २, २७, २९^१, ३०,

कौशि १४, माशि २५, २६,
नाशि १, ३^१, ९, १०, २, ५,
१५, १६, ५, १, ५, ६, १३^०, १४,
७, ३, ८, १, २, ५, १^०, ३, मीम्
७, २, ९; -रम् आधो ७, ११,
२, द्राधो २, २, ५१, साधो १,
६, ४८, ६ १०, १६, ७, ३, ११,
श्रम् २, १५ २५, निम् ५,
७ १९, ७, १२ ६,
अण, माशि ११, ९^०, -रयो
श्रमा १, ५२, श्रमा २, ४, ५,
माशि ६, २, याशि २, ९,
नाशि १, ७, १५, -रस्य
द्राधो ८, २, २४, साधो ४, ६
१६, निम् १, १३ १८xx,
मन्त्रा, -रा आधो १८, १३, ३१^०,
हिधो २१, २, ३४, साधो ७,
५, ३, अण, माशि १, ७, ८, २,
३, -रागाम् जैश्रीका ५३, निम्
५, ७ १२, श्रमा, -राणि
आधो ८ ५, ११, बौधो १८,
४८^० १४, द्राधो, -रत् वाधो
१३, १, ८, या २, २, श्रमा १४,
३०, ५०, श्रमा, -रत् बौधो
१६, १४. १८, श्रमा १, ६३,
३, २९, १४, ६५, शैशि, -राय
निम् २, ८ २८, -रे श्रमा २,
६०, ६, १५, श्रमा, नाशि २,
४, ५^०, पा २, १, २, -रेण बौधो
२०, १३ २, माधो, -रेण
माशि ३१ -रेण श्रमा २, ५२

a) पामे वृ २७९१ II द. b) = सिष्टकृद् होम- c) 'श्रका' इति पाठ १ यनि शेष ।
d) अण । e) बहु <सौविष्टि- । f) वैप १ द । g) पामे वैप १ सिष्टम् वाठ ३०, ६ डि द ।
h) पामे वैप १ सिष्टम् वाठ ५ ४ डि द । i) वृ श्रुदे ७, १२८ । या १२, १४ पराश्रुट द ।
j) शौच २, १०२ पा ७, २, ४४, ४९ पाया ७, २, ७० पराश्रुट ३ । k) धा गौरी इति । l) पा अर्वावा
इति । m) नाप (अस्मरदि, उदासादि, यज्ञादि, साम विषेण प्रम्) । n) वृ पागम् । o) = वाच्- ।
p) न स्वत्म् > अण याशि २, २५ न स्वायंम् इति, नाशि २, २, १४ न स्वरम् इति च पामे । q) अण,
पाठ । r) लस पूर्वस्ये इति ।

ध, उ०; उ, ३; अत्रा २, ३, ५;
-रैः निम् १, १२: १४; अत्रा
११, ७१; १७, २३; अत्रा; -रौ
निम् १, १२: ८; ९, ६: २९;
अत्रा.

सौवर- पा ७, १, ४.

श्वर- नः पावा १, १, ५१; ३,
१, ३^३xx; -रस्व पावा ६, २,
५२; -सत् पावा ३, १, ३^३; ६,
१, १८२xx; -रे पावा ४, १, १;
६, १, १७३.

श्वर-निवृत्त(ति-अ)र्थ-
-र्थम् पावा ६, ३, १४.

श्वर-प्राप्ति- शौ पावा ६,
१, ११९.

श्वर-वर्जम् पावा १, १, ६२.

श्वर-अरण-कण्ठौ(रुद्र-अ)रस-
दन्तौ(न्य-अ)श्व-अहणधारणो-
धारण-शक्ति- -क्तिः पावा ३,
१५, २३.

श्वर-किया- न्या काशी १, ८,
१६.

श्वर-ग(त)>ता- न्या नाशि १,
१, १६, १७.

श्वर-वोषवत्- न्यसु तैपा २, ८.

श्वरवोषवत्-नः अत्रा
१, ६७; ४, २७; तैपा ८, ३;
-रम् अत्रा १, १७.

श्वर-चिन्ता-विचारद- नैः
माशि २, ५.

श्वर-कन्त्र- न्त्राणि निम् २,
१०: २०.

श्वर-कम् (ः) पाशि १०; नाशि.

श्वर-प्रय- न्यम् नाशि १, ८, १.

श्वर-दीर्घ-यलोप- न्येषु पावा
१, १, ५८.

श्वर-दोष- न्यः पावा ६, १,

१०६; १२१.

श्वर-द्वय- न्यम् नाशि १, ५,
१२.

श्वर-यक्षमा(म-अ)न्वस्था-
-स्थामु अत्रा ४, ११९.

श्वर-यद-पूर्वो (र्व-उ) ष
(पा>)व- न्यस्य पावा ६, ४,
८२.

श्वर-पर- नः तैपा ९, १०; १४,
१६; -राणि लम् ४, २०; -रे
तैपा ११, १८; १६, २; शौच १,
१०१; -रेषु तैपा १२, ४.

श्वर-पूर्व- न्यैः शौच ३, २६;
-र्वम् तैपा १४, १, माशि
६, ५; -र्वाः अत्रा ४, १५८;

भाशि ४७; -र्वे अत्रा ५, १०.

श्वर-पृष्ठ- -ष्ठः ताश्री १०, १३,
१४; -ष्ठाः ताश्री ११, ११, ३;

दाश्री ८, २, २०; ताश्री ४, ६,
१६; -ष्ठानाम् ताश्री ११, ११,
१४; १२, १०.

श्वर-प्रत्य(य)>पा- न्या नाशि
२, ५, ५.

श्वर-प्रथाम- -नम् माशि ६, १;
याशि २, २९; माशि २, ५, २.

श्वर-प्रभृति- -ति काशी १९,
७, ६.

श्वर-भक्ति- -क्तयः माशि २,
११; याशि २, १३; -क्तिः अत्रा
१, ३२; ६, ३५; ३६; ४६; तैपा;
माशि ९, ८^०; -क्तिम् शैशि
११७; १८६; याशि २, १७; माशि
५; नाशि २, ६, २; ९; -क्तिषु
नाशि २, ६, २; -क्तेः अत्रा ६,
५०; माशि ४; -क्तेषु अत्रा
१४, ५८.

श्वर-भक्ति- -क्तयः माशि २,
११; याशि २, १३; -क्तिः अत्रा
१, ३२; ६, ३५; ३६; ४६; तैपा;
माशि ९, ८^०; -क्तिम् शैशि
११७; १८६; याशि २, १७; माशि
५; नाशि २, ६, २; ९; -क्तिषु
नाशि २, ६, २; -क्तेः अत्रा ६,
५०; माशि ४; -क्तेषु अत्रा
१४, ५८.

श्वर-भक्ति- -क्तयः माशि २,
११; याशि २, १३; -क्तिः अत्रा
१, ३२; ६, ३५; ३६; ४६; तैपा;
माशि ९, ८^०; -क्तिम् शैशि
११७; १८६; याशि २, १७; माशि
५; नाशि २, ६, २; ९; -क्तिषु
नाशि २, ६, २; -क्तेः अत्रा ६,
५०; माशि ४; -क्तेषु अत्रा
१४, ५८.

श्वर-भक्ति- -क्तयः माशि २,
११; याशि २, १३; -क्तिः अत्रा
१, ३२; ६, ३५; ३६; ४६; तैपा;
माशि ९, ८^०; -क्तिम् शैशि
११७; १८६; याशि २, १७; माशि
५; नाशि २, ६, २; ९; -क्तिषु
नाशि २, ६, २; -क्तेः अत्रा ६,
५०; माशि ४; -क्तेषु अत्रा
१४, ५८.

श्वर-भक्ति- -क्तयः माशि २,
११; याशि २, १३; -क्तिः अत्रा
१, ३२; ६, ३५; ३६; ४६; तैपा;
माशि ९, ८^०; -क्तिम् शैशि
११७; १८६; याशि २, १७; माशि
५; नाशि २, ६, २; ९; -क्तिषु
नाशि २, ६, २; -क्तेः अत्रा ६,
५०; माशि ४; -क्तेषु अत्रा
१४, ५८.

न्या अत्रा २, ४.

श्वर-भिस- -ज्ञानाम् पावा १,
२, ६४; ८, ४, ६८.

श्वर-भिस(न-अ)ग्रहण- न्यम्
पावा १, १, ७०.

श्वर-भूत- -ते अत्रा ४, ५९.

श्वर-भेद- -दः नाशि १, ७, १९;
-दात् पावा ६, ४, १७४.

श्वर-अष्ट- -ष्टः याशि १, २६.

श्वर-अष्टल- -लम् नाशि १,
२, ४; ६, ५.

श्वर-अभय- -अभयोः शैशि २२;
-अभ्ये अत्रा ४, १२७; १४४;

भाष् ३, १२.

श्वर-मा(त्रा)>अ- न्यम् कौशि
७४

श्वर-मात्रा- -त्रया वैताश्री १७,
४.

श्वर-मात्रा-विभाग- -ह- -अः
तैपा २४, ६; माशि ३, ७.

श्वर-वस- -मयोः माशि १२,
४.

श्वर-वय-ह-क-प- न्यैः अत्रा ३,
८५.

श्वर-योनि- -नियु ताश्री ११,
१२, ७; -नीनाम् ताश्री ११,
१२, ११.

श्वर-राग-विशेष- -येन नाशि
१, २, ७.

श्वर-लक्षण- -नम् कौशि ३४;
नाशि २, ७, ४.

श्वर-लोप- -ये शौच ३, ११.

श्वर-वचन- -नम् पावा २, १, १.

श्वर-व(य)>गी- -त्यर वैताश्री
२२, ११.

श्वर-वर्जम् अत्रा २, ११; पावा
४, १, १५१.

a) इष.>पस.>सप्त. b) पत्. c) उभारेण द्विवचनैः (स. अत्र. याशि २, १७) ।

स्वर-वर्ण- -यैवोः कौशि २५;
 -र्णान् शैशि १७०; माशि ३, ५;
 याशि १, ४५; -र्णाम्याम् नाशि
 १, १, ६; -र्णौ माशि ९, ८.
 स्वरवर्ण-ध(र)शि- -री
 याशि १, ३८; नाशि २,
 ८, ६.
 स्वरवर्ण-विवर्जित- -तम्
 शैशि १६८; माशि ३, १; याशि
 १, ४१.
 स्वरवर्ण-सेहिता- -ते ऋषा
 ११, ५८.
 स्वर-वर्णक^१- -का. ^२ माशि १,
 १४.
 स्वर-वर्णता- -ता. ^३ नाशि १,
 ४, ३.
 स्वर-वर्ण-पद्- -देः शेष १०९.
 स्वर-वर्णानुपूर्वी- -शान्ता(म-
 क्)थै- -थैः पावा ४, १, ३.
 स्वर-वर्णानुपूर्वी-देश-काल-
 नियतत्व- -त्वात् पावा ५, २,
 ५९.
 स्वर-विवृ^८- -विवृ याशि १,
 ५२.
 स्वर-विद्ध- -द्धम् माशि २,
 १०.
 स्वर-विधि- -थैः श्रुपा १, १४८.
 स्वर-विन्यास- -शील- -लः
 कौशि ४१.
 स्वर-विभक्ति- -क्तिः निम् ३,
 १० : १; ४, १३ : १४; ५, २ :
 ३०; -क्तेः निम् ५, १ : २०.
 स्वर-विशेष- -यः अत्रा १, १,
 २८; २, ५; ९; ३, २.
 स्वर-व्यङ्ग्य- -नयोः माशि
 १०, ३.

स्वरव्यञ्जन-माधुर्यं- -यम्
 नाशि २, ८, ९.
 स्वरव्यञ्जन-संयु(क्त)का-
 -क्ता नाशि १, ६, २.
 स्वर-दास्य- -स्त्रागाम् नाशि १,
 १, १; २.
 स्वर-श्रुति-पूरण- -णत् नाशि
 १, ३, २.
 स्वर-संयुक्त- -क्तः नाशि २, ४,
 ७; -क्तम् कौशि ५४.
 स्वर-संयुत- -ताः शैशि ३२४.
 स्वर-संयोग-ज- -जानाम्
 ऋषा १४, ६३.
 स्वर-संस्कार- -रथोः श्रुपा १,
 १; -री वा १, १२; १४; २, १.
 स्वरसंस्कार-संयुत- -तम्
 कौशि ४४.
 स्वरसंस्कार-प्रतिष्ठापरिवृ-
 -त्ता श्रुपा ८, ५३.
 स्वरसंस्कारो(र-उ)देश-
 -शाः वा १, १५.
 स्वर-संशक^९- -कः माशि ८,
 १.
 स्वर-संशा- -शायाम् नाशि १,
 ८, ६.
 स्वर-संधि- पावा ६, १, १००;
 -धयः अत्रा २, १, ५; -धिम्
 माशि ३, ६; नाशि १, ९, १८;
 -धियु पावा ६, १, १००.
 स्वरसंधि-विज्ञान- -नेन
 याशि २, २७.
 स्वर-संश्लेष- -थैः श्रुपा ६, ५.
 स्वर-समासा (स-अ)जुवपत्ति-
 -त्तिः पावा ३, १, ११५.
 स्वर-समासात्- -नेषु पावा
 १, २, ६४.

स्वर-समासात्-पुंयज्ञाप- -षेपु
 पावा २, १, १.
 स्वर-साम्- -अ वाधौ ३, २,
 ३, ३६; -मध्यः शोथौ १४,
 १९, २; -मसु शोथौ १०, ९,
 ५; १२, ६, ६; २७, ३; शोथौ;
 -मानः शोथौ ८, ५, १०; ९,
 २५×४; शोथौ; काथौ १३, २,
 ८; -रनः शोथौ ८, ७, १३;
 ११, ७, ४; १०; शोथौ; -म्नाम्
 शोथौ १०, ९, ११; निम् ३,
 ६ : ३५; -मिन् लाथौ १०, ६,
 १६; ८, २; निम् ५, ३ : ३३;
 ३७; -म्नेषु लाथौ १०, ७, १४;
 निम् ५, ४ : १८.
 स्वरसामिक^९- -केषु
 शोथौ ८, २, २०; लाथौ ४, ६,
 १६.
 स्वरसाम-विश्वमिद्-वर्ज्य
 नैताथौ ३१, १३.
 स्वरसामा(म-अ)भित्त्वक-
 गवायुद्- -युधि नैताथौ ४०,
 १४.
 स्वरसामै(म-अ)कफवाला(ल-
 वा)भि(वा)क्ष- -क्षम् गीष्
 ७, ३, २६.
 स्वर-सिद्धि- -द्धिः पावा ५, २,
 १८.
 स्वरसिद्धय(दि-ल)र्ष- -र्षम्
 पावा ५, १, ११६; ६, १,
 १२१×४.
 स्वर-सौक्ष्म्य- -क्ष्मत् नाशि
 २, ७, १२.
 स्वर-स्थान- -नात् नाशि १, ६,
 २०.
 स्वर-हित- -तम् कौशौका

a) धव. उप. = श्रुत्वादि. b) परस्परं पाठे. c) उप. <√विद् (ज्ञाने)। d) यत.।

e) वैप २, ३ सं. द.। f) तत्रयथीयत् उम् य.।

१३७^a.

स्वरा(र-अ)क्षर-वद-वृत्त-भेष-
-यः वैश्री २०, २६ : २; -वेपु
बौधो २७, २ : ८; वीथ ४, ९,
१३.

स्वरा(र-अ)क्षर-समाप्त- -ना-
नाम् कौशि ६५.

स्वरा(र-आ)रया- -ख्या नाशि
२, ५, ६; -ख्याम् नाशि २, ५, ७.

स्वरा(र-अ)ज्ञ- -ज्ञम् तैप्रा
२१, १.

स्वरा(र-आ)ज्ञ^०-ता- -ताम्
कौशि ७७.

स्वरा(र-आ)दि- -दि माथी ५,
१, १, १२; उम् ८, ३; -दिः
आथी ७, ११, ११; -दिम् आथी
१, २, १०; वैताथी २१, ४; -दिपु
लाथी ६, १०, १६; -देः शाथी
६, १, १५; उम् ८, १५-१७; -दौ
अप्रा ३, ३, २१; -घोः माध
३, ८.

स्वरादि-निर्लेप- -यः कौशि
१.

स्वराद्य(दि-अ)स्वरादि- -घोः
नाम् ३, १.

स्वरा(र-आ)द्वैत- -वाः अप्रा १,
१५.

स्वरा(र-आ)द्वन्द्वो(न्त-उ)
पद्य- -द्यात् पावा १, ३, ६४.

स्वरा(र-आ)द्वि(दि-उ)पद्य-
-द्यात् पावा १, ३, ६४^b.

स्वरा(र-आ)द्वन्द्वि(द्वन्द्व-
-नम् पावा १, १, ७.

स्वरा(र-अ)द्वन्द्वगम- -नः बुदे

२, ११४.

स्वरा(र-अ)नादिना- -ने लाथी
७, १०, २.

स्वरा(र-आ)नुनासिक-काल-
भेद- -द्यात् पावा १, १, ६१.

स्वरा(र-अ)नुयन्-शापन-
-नाय पावा १, ३, १.

स्वरा(र-अ)नुस्वारो(र-उ)प-
दित- -नः अप्रा ६, १.

स्वरा(र-अ)नुस्वारो(र-उ)प-
पन्- -न्यनाम् अप्रा १३, ११.

स्वरा(र-अ)प- -न्यम् अप्रा
४, २८; अप्रा ३, ४, ३; वैशि
१९९; पाशिः -स्तानि अप्रा २,
२, १०; १२; -स्तेन वीथ ४, ५५.

स्वरान्त-ता- -ताम् निम्
२, १० : २०.

स्वरान्त-पूर्वपद- -दानि
अप्रा ५, २८.

स्वरान्ता(न्ता-आ)प-
-यानि अप्रा २, २, १.

स्वरा(र-अ)प्लर- -रम् अप्रा
२, ३; नाशि १, १, ३; ८, ३;

-रं अप्रा १, २३.

स्वरा(र-अ)प्लर(र-अ)विरत-
-तानि नाशि १, ७, १७.

स्वरा(र-अ)प्लर- -न्यम् नाशि
१, १, १.

स्वरा(र-अ)प्लर- -न्यः पावा
६, १, १५४.

स्वरा(र-अ)प्लर- -न्यम् पावा ५,
३, ८.

स्वरा(र-अ)प्लर- -न्यम् अप्रा
१, १२६.

स्वरा(र-अ)प्लरमान- -नम् अप्रा
११, ६०.

स्वरित- -नः वैताथी ३२, १५;

अप्रा ३, १; ३; अप्रा; पा १, २,
३१××; -नम् आथी ७, ११,
१६; लाथी ७, ८, ५; अप्रा;

नाशि २, २, १२^c; -तयोः
तैप्रा १९, १; -तस्य अप ४७, ३,

१; अप्रा ११, ५६; अप्रा; पा १,
२, ३७; -ताः अप ४७, ३, ५

अप्रा १, १२२; वैशि १७५

नाशि; -ताम् अप्रा ३, ११; अप्रा
४, १४१; तैप्रा; पा १, २, ३९;

-तानाम् नाशि ५, ४; -तानि
अप्रा २, ३, १०; ३, ११; २,

३, २२; -ते वैशि १३६; नाशि;

-तेन अप्रा ११, ५३; पा १,
३, ११; पावा ३, १, ३; -तौ
अप्रा ४, ६३.

स्वरित^d पा १, ३, ७२.

स्वरित-स्व- -स्वम् पावा ६,
१, ८४; -स्वे पावा ६, १, १०४.

स्वरित-पर-सप्तवरा(र-अ)
र्थ- -र्थम् पावा १, २, ३२.

स्वरित-पूर्वाङ्ग- -ङ्गे नाशि
२, २३.

स्वरित-प्रचित- -ते नाशि
१, ७, १९.

स्वरित-प्रसव- -न्याः पाशि
१२; नाशि १, ८, ८.

स्वरित-प्रसवप्रचित-
नाशि ५, ६^e.

स्वरित-वद- -वान् अप्रा
४, १३३.

a) अप्र. वैश्री १४ : ६ स्वयम् इति पाठे. b) वस. c) वृ. पाव. d) इत. e) ए- > तप्रसवप्रचितं ए- > [विप.] > -यानि इति शेषः। e) समाहारे इत. f) विप., नाप. (स्वर-विशेष-). इतच् प्र., [विप.] ए- > सूट इति. g) अप्र. नाशि २, २४ स्वयम् इति पाठे. h) पाठः इ- > तप्रसवप्रचितम् इति शेषः समाहारे (वृ. नाशि १, ८०)।

स्वरित-वर्जम् शुभ्रा २, १,
स्वरिता(त-आ)दि- देः
उष् ८, १६.
स्वरिता(त-धा)देश- ने
माशि ५, ५.
स्वरिता(त-घ)मुदात्त- नौ
भास् १, १४.
स्वरितानुदात्त-संनि-
पात- ने तैत्रा १०, १२.
स्वरिता(त-व)प्रतिदि-
पावा ६, १, ८४.
स्वरिता(त-अ)र्ध- अंम्
पावा ८, २, ४.
स्वरिता(त-अ)बृह- ने
माशि ५, ८.
स्वरितो(त-उ)द्व- याः
याशि २, १७.
स्वरितो(त-उ)दात्त-
-चात् पावा १, २, ३२; -ने
शौच ३, ७४.
स्वरितोदात्त(त-अ)र्ध-
-अंम् पावा १, २, ३२.
स्वरितो(त-उ)दात्त-
-घयोः पावा ६, १, १५७.
स्वरितोदात्त-पर- रम्
उष् ८, ८.
स्वरितो(त-उ)दात्त-नोच-
त्- न्वम् तैत्रा २४, ५.
स्वरितो(त-उ)प(धा>)
घ- -घे ऋषा ३, १२.
स्वौ(र-ए)कदेश- न्वम् ऋषा
११, ५६.
स्वरो(र-उ)वरपदसुदणदि-अ)

र्ध- अंम् पावा ५, १, ११९.
स्वरो(र-उ)त्तर-व-पूर्व- न्ये
माशि १५.
स्वरो(र-उ)द्व- -याः ऋषा ४७,
२, ८; ऋषा २, २४; ४, ६५;
-यम् ऋषा २, २१; ७१; ११,
१९; -ये ऋषा ५, १४; शुभ्रा
४, १७; माशि १०, १; -यौ
माशि ९, ८.
स्वरोदा- -दा माशि २, ६, ७.
स्वरोदाया- -याम् माशि २,
६, ८.
स्वरो(र-उ)पञ्च- नः शौच ४,
१०९.
स्वरो(र-उ)प(धा>)घ- -यात्
ऋषा १४, २३; ५४.
स्वरो(र-उ)वहित- -तात् ऋषा
६, ४६.
स्वरो(र-उ)न्म-पर- नः ऋषा
६, १०.
स्वर्व- -अंम् जैत्रो १४: ६.
स्वस्वरण- -यम् शौचो १, २२, ५;
शौचो ६, १८, १; शौचो.
स्वस्वरण- -यम् माशि ११, ७.
स्वस्वत्- -यन्तः शौचो २, २, ४;
शौचो १, ६, ३.
स्वस्वत्- नः शौचो १८९; माशि
१, ८४; ८५×४; माशि; माशि
१, ८, ४^०; २, ७, ३^१; -रम्
शौचो ६, ११, ४; १२, १४;
७, १, १; २, १; शुभ्रः माशि २,
२४; -रयोः शौचि २८; -रस्य
माशि १, ५५; -राः ऋषा ३.

३४; नाशि २, १, ९; ११;
-राणाम् नाशि २, १, १०;
-राणि लाघो ४, ६, १६; ६, ९,
६; शुभ्रः; -रात् ऋषा ३, १८;
-रौ माशि ८, २.
स्वार-नामधेय- -यानि तैत्रा,
२०, ८.
स्वार-पर- नः शौचि २७.
स्वार-आय- -यानि लाघो १०,
२, ५.
स्वार-बलायल- -रम् माशि ८, ३
स्वार-विक्रम- -मयोः तैत्रा १७,
६.
स्वार-संज्ञा- -ज्ञायाम् माशि १,
८, ७.
स्वारो(र-उ)दात्त- नौ याशि
१, ८९.
स्वारोदात्त-पर- नः शौचि
१०, ११.
स्वारथिवा उष् ८, १४; १५.
स्वार्ध- -अंम् याशि १, ८९; -अंम्
माशि ११, ६; याशि २, २५^{३१};
नाशि २, २, १४^{३०}.
स्वृ(गु-अ)त्- -तः वा २, १४^१.
स्वृतीक- -रम् निघ १, १२^०; वा
१४, ११.
√स्वृ^०
स्वेच्छा- १स्व- द.
स्वेद- स्वेदन- प्रभ. √सिद् द.
स्वैर- १स्व- द.
स्वैरकि- -कि शौचो ४१: ११.
स्वैरि-कर्मन्, स्वैरिद्-, स्वोपस्य-
१स्व- द.

a) वच. । b) वस. । c) = स्वस्वकि- । नेप. < स्वरोदया- ? । d) हितार्थे वच प्र. (त. सप्र. जैत्रो १३७ स्वस्वहितम् इति पाठे.) । e) वैप १ द. । f) भाप. । g) = स्वस्वित- । साम-विशेष- । [लाघो. प्रन्.] । h) स्वारः इति लाघो. । i) स्वत्वे इति लाघो. । j) पाठे. पृ १०७४ g द. । k) कर्मणि ष्यत् प्र. । l) पाठे. पृ १०७१ p द. । m) स्व इति पाठे ? यनि. शौचोः (त. माशि.) । n) वप. = १स्वत- । o) = १उदक- । p) पृ १९८४ k द. । q) = ऋषि विशेष- ।

ह

हृ- हि श्राव ४, ५, १४.
 हृ- ह्योः पाणि १८.
 हृ- ह्यश् श्राव ५, ६, ५.
 हृ^१ आशी २, १८, १२; शीथी २, १५,
 ५; पाथी; शीथी ३२, २१९;
 ह्यु ३, २: २२९; हा भाव २,
 ७: १४; हाश् आप्तं २, १६, ४.
 ह-व्यश्- -व्यतोः वा ३, २, ११६;
 -व्यस्वाम् पावा ३, २, १२२.
 हृ- वेज्यो १८^१; हः श्व ४७, १, १६;
 श्या ४, १२४; श्व ४, ४, ६.
 हकार- -रः श्राव ४, ५; १४, ५७;
 श्राव; -रम् निष् २, १: ८; शैति
 २२८; ३०२; ३३८; पाणि: -रस्य
 श्व ४७, २, १०; शौच २, ७; पावा
 ७, ३, ५४; पात्रवा ५, १; -राव
 श्राव २३, १०; शैवा २१, १४;
 शौच १, १००; -रे श्राव १४,
 १८; शौच १, ४७; शैति ३०१;
 पाणि: -रेण आशि ४, १०.
 हकार-परिवर्ति(त>)ण- -वा
 पाणि १, ५४.
 हकार-नेफ-संयुक्त- -काः वाणि
 २, ५६.
 हकार-वन्म लृ १, ७.
 हकार-वन्म- -व्यतोः शैति २४.
 हकार-विसर्जनीय- -व्यो शैवा २,
 ४६.
 हकार-लोप्यो(म-उ)पहित-
 -वाव श्राव १४, ५२.
 हकार(र-आ)दि- -दि पाणि
 २, २, १०; -दिः श्राव ३, १, ७;
 -दियु पाणि ८, १०; -दी शौच

४, ६३.
 हकार(र-अ)नुराग- -री पाणि
 ४, ४.
 हकार(र-अ)न्त- -न्तः श्राव
 ३, २, १३.
 ह-प्रद्वग- -गम् पात्रवा ५, १.
 ह-युध- -यैषु शैवा २, ९.
 ह-लोप-व्यपन- -गम् पावा ६, ३,
 ७८.
 ह-यज्ञम् श्राव १, ५१.
 ह-विसर्ग- -व्यो पाणि १२०.
 ह-विसर्जनीय- -व्यो आशि १, ८.
 ह-श-वकार-पर- -राः शैवा १४,
 २६.
 ह-य- -व्यो शैति २९४.
 ह-य- -रे शौच २९३.
 हाः श्राव २, १, २.
 हा(ह-आ)विस- -व्येषु पावा ८, ४, २.
 हा(ह-अ)न्तर्य- -स्याः श्राव २,
 २, ५.
 हंस, सा (श्राव.)^१- पात्र ३, ६२; पात्र
 २, ४, ३१^१; ४, २, १२८; ५, २,
 १११^१; ६, ३, ११८^१; -साः
 आशी ८, २, १४^१; शीथी ११,
 १४, १४^१; काथी; वाधुथी ४,
 ३०७; शंष २४३; विष ४४,
 १५; वा १४, ११^१; ३१^१; -सम् शंष
 ११६; ५७; -मस्य
 शैथी ११, ७: १३; -साः श्व
 ६८, १, ३३; शैथ १, १; ४;
 वा ४, १३^१; १४, ३१^१;
 -संसातः^१ श्व ४८, १३; निष
 १, १४; -सैः शीथी ४, ११, ६.
 हंसी->हंसी-गद्गदा- पावा
 ६, ३, ४१^१.

हंस-वागव्य^१- (>व्य(त>)
 ती-)
 हंस-गद्गदा- पावा ६, ३, ४१^१.
 हंस-श्रावमुचकुट-श-शुगाला (उ-
 आ)दि-माता-मक्षग- -गम्
 युध ८७: ९.
 हंस पय- पा^१, पात्र ५, ३, १००;
 पात्र ४, १, ८६^१.
 हंसपय- पा ४, १, ८६.
 हंस-प(त>)दा^१- -दा पाणि ९,
 ११; १३^१; पाणि २, १३; १५^१
 १६.
 हंस-परिवार^१- -रः शंष २४३.
 हंस-पाति(त>)नी^१- -नीः शीथी
 १०, ३८: १६.
 हंस-मलाक-मक-मद्गु-यानर-श्वेन-
 भास-चक्रवाक- -कानाम् विष
 ५०, ३३.
 हंस-भास-चक्रवाक-सुपर्ण- -र्णाः
 भाष १, १७, ३५; हिप १, ५,
 ६६.
 हंस-भास-वर्द्धि-चक्रवाक-प्रचलाक-
 वासो(ह-अ)ल्ल-कण्टक-दिद्रिक-
 मण्डूक-देरिका(क-अ)श-मसु-
 नकुला(ल-आ)दि- -दीनाम्
 शौच १, १०, २८.
 हंस-मुल->श-प्रसे(क>)का^१-
 -काः काथी १, ३, ३८^१.
 हंस-मुल-प्रसेष(न>)ना^१-
 -ना^१ शीथी २०, १६: १५; शीथी
 १, १६, ६; शीथी १, ४, ३२.
 हंस-मु(श>)शो^१- -शोः शीथी
 १०: २६; -शोम् शीथी १०:
 १८; २०; २०: २१; -शो शीथी
 १०: २८; २०: १७; -श्वप:

a) = ह- । b) शैथ १, ३. । c) = वर्द्धि-विशेष- । d) = हंस-नक्षत्र- । e) श्रु. पात्रम्. ।
 f) श्वपः ११ । g) श्रु ८६२ पृ. ६. । h) = अश्व- । i) <हंसपयक- । j) = स्वर्भाषि-विशेष- । k) मस. ।
 l) = श्वक-विशेष- । m) मस. श्लोकाः <> श्लेषनाः <> हंसमुल्यः इति पाठे. । n) विष, नाप. (श्वक-). मस. ।

आपथी १, १५, १२^०, बाठथी ७,
काण्ड ४६-६.
हंस ष(र >)थी- पा ६, ३, ११८,
-रथा^० आपथी १६, १०, १८,
१२, ५, माथी ६, १, ४, १६, २८,
वैथी १८, ८ : १३, हिथी ११,
३, ४०.
हंस-सावि^०- चि वीथी २४, ११ ७
हसा-वत्- हसिन्- पा ५, २, ११६.
हसोय- पा ४, २, १३८.
हंसक, का- (> हसकायन- पा.)
पाग ४, १, १९, २, ८०^०.
हंस-कारण्य- प्रह हंस- द
हंसि(क >)त्त- पाठ ४, १५४.
हसो^० पाग १, ४, ५७.
ह-प्रहता- चतुर्थ- ह- द
✓हद् पाथा म्वा पर दीर्घी.
✓हट् पाथा. म्वा. पर ष्चुतिष्ठ
रवयो षठात्कारे च
हत-, हति-, हसु- प्रश्न ✓हर् द.
✓हद् पाथा म्वा प्राम् पुतिपोत्तों
✓हन्^० पाथा अदा पर हिसान्त्यो,
हन्ति निष २, १४^०, हन्स्व
कौस् ४८, १८, हन् आमिष्ट २,
६, १, २५^०, हुन्सहन् अप
३५, १, २, ३६, ९, ३, अदनर्
शाथी १४, ५०, १
हन्ते वैथी २ : १९^०, हन्ति काथी
२०, १, ३८, आपथी १७,
२१, ७^०, २३, ११, १३.

वीथी, निष २, १४^०, प्रते
वाथी १, ७, ३, १८, हिथी ५,
३, ३२, मन्ति वाथी १५, ७,
५, २०, आपथी १०, २७, ७,
पौथी, हुंसि निस् १, १-१९,
अप ४६, ५, १, हन्ति वाथी १,
३, २२, आपथी १५, १९, ५^०,
२४, १२, ६, वीथी ३, १६ :
२९, ९, १८ : २१^०, माथी ४ ९,
२, ११, २०, १^०, हिष्ट, आमिष्ट १,
५, ३ ४^०, हुंस्व काथी ८, ३,
१०^०, शाथी १२, १८, १७^०,
हुंस्व आपथ २, १३, १०^०,
आमिष्ट २, १, ३ १९^०, माष्ट १,
२३ ११^०, वैष्ट ३, १५ ५^० x x,
हुंस्व शाथी १४, ७, ४, सु १६,
५, वा ६, १७, हुंस्व वैताथी
१४, १^०, अप ३७, १, ४, प्रन्तु
माष्ट २, १४, २६^०, हुंजि, > ही
काथी ३, ५, १४^०, ४, १५, ५,
आपथी, आमिष्ट २, ६, ६ :
२८^०, काष्ट २४, १६^०, वीष्ट २,
१, १५^०, म्वा ७, ५४, हुंस्व
हिष्ट १, १३, १३^०, वीस्,
हुंस्व काष्ट २४, १६^०, माष्ट १,
९, २०^०, वाष्ट ११, २३^०, हिष्ट
२, ३, ७^०, गो २, १३^०, हन्तन,
> ना वा ४, ७, तेषा ३ १०,
हुंस्व शाथी ८, २५, १३^०,
आपथी २०, ६, १४^०, वीथी १५

१, ८^०, वाधुथी, हिथी १४, २, १७^०,
अपन्तु वाधुथी ४ ६३-२, ८०-
२, ५, अहाम् माथी १, ६, २,
१०^०, शीता माथी ५, १, ६,
२२, हुंस्व आपथी १५ १८,
१०, १९, ५, १७, १७, ७^०, वीथी,
हन्तु वीथी २९, १३ ७^०, अप
५२, १४, ४, १५, १, २ x x;
हनीयाः माष्ट २, २४ १६^०,
हुंस्व वाथी २, २, ३, २६^०;
हिथी १२, ५, २२, ३४.
हनोमि पाष्ट १, ३, २७^०
जयान् माथी ६, ३, १^०, वाथी
९, ५, २^०, वाधुथी, आपथ २,
१७, २७^०, आष्ट २, ३, ३^०,
माष्ट २, ७, १^०, हिष्ट २, १६,
८^०, प्रन्तु वृदे ६, ११५,
अप-थ वीथी १५ ६-१२^०, सु
११, ३, माति, हनिष्पसि सु १४,
५, कौस् ४९, १२^०, अम् ११,
३(२), हनिष्पे वैताथी ३७, १८,
वृदे ६, १२२
हन्त्ये आपथ २, २६, २, हिष्ट
२, ५, १९७, वा ९ १४, हुंस्व
कौस् १५, १७, ७५ ५^०, आपथ
१, ९, २६, हिष्ट १, ३, २७,
हन्त्ये आपथी २०, ८, १,
२२, ४, २६^०.
घातयस्व राध ३८४, घातयेद्
माष्ट १, ३, ६, अप १, १०, ५,

- a) पागे पृ २०७६ III द । b) = [हसावन्वती] शब्-। c) वेप १ द । d) का- इति पाका ।
e) अर्थ १ । f) तु पागम । g) वा १, ७, ३, १८, ४, १३, २५, २७, ३, ३, ११, १७, ९, ८, २० वीप ३, ९१,
पा १, २, १४ प्रश्न पराष्ट द । h) वा गती भृति । i) पागे वै १, २ हन्ति वी २, ३२, ३ टि द ।
j) हुंस्व इति पाठ ? मन्ति शोष (हुं हिष्ट, लि २, ११, ५ व) । k) सप्य भवत् <> इत् इति पागे ।
l) पागे वैप १, २७१४ द । m) सप्य जहि <> हनीमि इति, हिष्ट १, १३, १३ अप जहि इति च
पागे । n) सप्य हवत् <> हवत् <> हनीया इति च पागे । o) पाठ ? हव इति शोष इति
सकृत् टि, Böhler । ZDMG ५२, ८३ च । p) पागे वैप १ जयान् शब् २, १५, १ टि द । q) पागे,
वैप २, ३६. अजयत् माष्ट १३, १, ५, ६ टि द । r) पागे पृ १३०२ III द ।

वाध १२, ४६xx, गीष
 ऋनिघासवि बौधो १५, ६ : १,
 वाधो ३, ४, १, २४, हिभी,
 निघाससि ऋप्रा ८, ४१,
 अजिघासन् तैप्रा १६, १३१,
 निघासेत् अत्राय २, ९, निघा-
 सीयात् वाध ३, १७
 ऋजहन् आधो १, ५, २९xx,
 शोधो ६७, १०^३, आधयो.
 इधन- न वा ३, २, ७७.
 घनायन^०- पादा ६, १, १२, -न
 छुप्रा ५, ३७^१.
 घात- षे अण ५१, ३, ३, ४, १, ३,
 ५, ७०^३, ११, १७
 घात-निघासि-अजिघास^०- अण
 वाधि २, ७८.
 घातक- -आ विध ५१, ७४,
 १घातन^०- अम् अण ६८, २, १८,
 विध ३६, १, ४१, १.
 २घातन^०- वाट ५, ४२, -नम् अण
 २०, ७, २
 घ्यात्वात् वा ३, ४, ३७
 घातविन्वा शध ३८१
 घासि- पाठना ४, १३६
 घासित- -नम् अण ५१, १, ५,
 शंघ ४४०.
 घासित्- वा ३, २, ८६
 घातुक- वा ३, २, १५४, -क
 बौधो १४, २४ : ३२, शंघ
 ३२८
 घ्न- ऋण बौध २, १, ६, ऋणा
 आधयो १२, २३, ५^१, ऋण
 बौधो १३, ४२ ९, बौध २,
 ५१, वा ७, २३, लैवि,
 ऋण. बौधो ७, १३ : २५^१,

ऋणम् दाधो १०, ३, ५, साधो
 ३, ११, ३.
 ऋणनी- -नी आधयो २, २, १० : १
 सु २४, २; वाट ४१, ११, बौध
 लघन्वस्- वा ७, २, ६८, -ऋण्वात्
 वा २, १७, ७, २३^१, ऋप्रा ४,
 ६९, शैथि २२७.
 जति- वा ३, ३, १७१
 जतिवस्- वा ७, २, ६८, -वांसम्
 बौधो १७, ४९ : ९; तैप्रा १६,
 १३^१, -वात् वा २, १७.
 जद्मव^०- -हृम्वतः ऋप्रा १४,
 ५४^१.
 जहि> जहि-जोड-, जहि-रुग्भ-
 वाट २, १, ७२.
 जिघांसत्- सतः शोधो १८, ११,
 २^१, -रन् छुप्रा ३, १५ : ७,
 बौध १३५, १^१, ऋप्रा १३,
 २४, -सन्वत् वाध ३, १७.
 जिघांसद्-वाश- -ञ निष् ६,
 १० : १.
 जिघांसु- -सुः वृदे ७, ५०; -सुम्
 वृदे ६, ११२, -सोः वाध १३
 १^१.
 हत,ता- वा ६, ३, ४३; -तः
 ऋणाधयो ३, १४, २, १२, ११,
 १०, भाधो, गीष ४, ९, १०^१,
 दाट ४, ४, ३^१, -नम् आधयो
 १८, ९, १०^१, बौधो १२, ४,
 १५xx, वाधो, -तपो. बौधो
 १०, ९ : २, -तस्य विध २३,
 ५०^३, वैध ३, ९, १, -ता अण
 २२, ३, २, -ता शोधो १५,
 १९, १^१, बौधो १८, १३ : ९,
 बौध, -तवि वाध १७, ७१,

-ते अण ५१, ३, ४, ५६, १,
 ४xx; वृदे, -तंग आधयो २, १०,
 ९; आनिष् २, ९, १ : २६^१.
 हत-अग्ध-पर- -रे पादा ८, ४,
 ४८.
 हत-वापात्- -व्या अण १,
 ४५, ३.
 हत-युप^०- -प्रस्य ऋण २, ७,
 ३२; अण २०, ७९.
 हत प्र(भा>)म^०- -भः अण
 ६३, ५, १.
 हत-मानस्^०- -ना बौधो १३,
 २१ : ८; २६, ५ : २०, २१.
 १हत-यत्-> षी- -त्य निष्
 ६, १० : २.
 हत-वर्षस्^०- -र्षा अण १२,
 २^१.
 हत-वर्मन्^०- -र्मन् वा ३,
 ४^१ १^१, -वर्मान वा ३, ४.
 हत-वासस्^०- -साः वैध ५, ७ ५.
 २हतवत्- -वात् वृदे ६, १५२.
 हति- -तिम् सु ९, १.
 हत्- पाठ ३, २०.
 हावा बौधो २, ७ १^१, सु
 हरशाय वेताधो ३२, १२^१.
 ह्य^०- पाठ २, २; -भात् वा ६,
 २७^१ १^१.
 हनन- -नात् वा ६, २, २७, -नात्
 बौध २७, १४, -ने गा १, ७
 हननी- वा ४, ४, १२१.
 हनवा(न-व्य)र्ष- -र्षा वैधो
 २०, १०७
 हनुप- पाठना ४, ७५, ७९
 हन्व- पाठ ४, ७३.
 ऋणवेषे शोधो १८, ६, २, १२, ३,

a) पान. वैप १ जिघासे ऋ ६, ५१, २ टि. द. । b) वैप १ द । c) रजाणां हस । d) भावे
 हत् । e) वृदेरि हत् । f) पाने वैप १ ह्यन्त लै ३, ५, ३, २ टि. द । g) पागे. वैप १ द ।
 h) व्यप । i) पाने वैप १ ह्यम् बौ २, ३२, ३ टि. द । j) वस । k) पाने, वैप १ ह्युपवस. टि. द ।

आपथी १६, १६, १, बौधी
 हन्त्व्य-व्य काथ २७५ २,
 -व्यम् माशि ६, ५
 हन्ति- > णिन्-कर्मन्- मां या
 ५, २
 हन्तुम् वृदे ६, १२२, या १, ८१
 हन्तु-नाम- स अप ३५, १,
 ६, -मख वैधी २, ९ ३
 हन्त- पाठ २, १४, -ण्ता आथी
 ६, ४, १०, शोथी, आपथी ११,
 १२, २१, शोथी ६, २९, वैधी
 १४ ८ १, -न्तार बौधी १६,
 २०-१२, -न्तारम् हिथी १३,
 २, ११^१, विप ५ १११, -न्तारम्
 -न्तारम् आपथी १८, ५ १९,
 वैधी १७ १५ ५, -न्तारी या
 १३ ५ -न्त विध ५ ११०
 हन्त्री- > ण्त्री-मुष्- स.
 पाण १, १६, २३^१
 हन्तोर् () या ६, २^१
 हन्वमाल- नरय अप ६८, २, १६,
 -ना अप ७०^१, ६, ५
 हान्त्र पाठ ४, १६०
 हन्तुन्- पाठ १, १०, पाण ५, २,
 १७, ६ ३ ११९, ८ २, १^१, -नु
 या ६, १७^१, -नुभि माथी १,
 ६ ७, २८, -न् आथी १२, ९, २,
 आपथी २०, २०, ७^१, बाधुथी,
 या ६, १७^१ -ण्न्पाथम्
 आपथी २०, ११, १२, वैध ४
 १०-१० तैत्रा ३, ७, -न्वाम्
 ऋत २, १, १०, -णो धामिण
 ३, ४, २ ७, ५, ७ ३, वैध ५

४. २८, हिपि.
 हनु-सूल्-हम् शीव १, २०, -ले
 आ ४७, २, ५, -लेन शुभ्रा १,
 ८३
 हनु ल- पा ५, २, १७
 हनु मत्- पा ५, २, १७, ६, ३, ११९,
 ८, २, ९^१
 हनु सूल्-ले तैत्रा २, ३५
 हनुप-, हनुप- √हर द
 हन्त् आथी ५, १३, १४^१, शोथी, पा
 ८, १, ३०, ५४, पाण १, ४, ५७
 हन्त् √हृ > हन्त्-कार- र वम
 २, ३, १२, -रम् पाण १ १९,
 ६^१, वम २ ३, ८
 हन्तये √हर द
 हिन्ताय अप १२, १, ६^१
 हनुपा- पाठ २, ३, १६४
 हम् माथी २, १३ १३, पाण २, ४,
 ५७^१
 हम्- -नाम काण ४, २०^१, गौध
 २६ १२
 √हम् पाया भ्वा पर गती, हम्मति
 निच २, १४^१
 √हृ पाया भ्वा पर गती, ह्यति,
 ह्यन्तात्^१ निच २, १४
 ह्य^२- पाण ४ १, ४१, ६, १, १९९,
 -य आथी ३, ४, १०, शोथी
 १०, २, ७^१, गौथी, -यम् वैध
 ४ १४ १३, जैश २ ९ ३३,
 अज्ञा २५, ४, माशि २ ६४,
 -यत्त्व ण्णौथी १५, ३१ ९
 १२x, शोथी ३, ४, ४, २२,
 -या अप २०, १, ३, २, १, वरे

४, २८, -यानाम् माशि १५ ९,
 याशि २, १०९, नाशि २, ८, २३
 हवी- पा ४, १, ४१, पाया ४,
 १, ६३^१.
 ह्य रूप- > ह्यिन्- विणम् वृदे
 ७, ४
 णिह्यत्- -य शोथी ७ १८, ४^१
 णिह्ये^१ शोथी ६, १० ८, गेण ४, ८, २,
 दाण ३ २, ८, ऋम २, १०, १५^१,
 वृदे १ ५३, ७, १५४, पाण
 १, ४, ५७^१, ह्येइइये काथी,
 २० ६, १८
 हर^{१०}- रम् अप १ २७, ४^१, श्वा ७,
 ४, वृदे ५ ११^१, -णैराय व्याण
 ४ ८, १९, गौध २६ १२
 हरण-हर- प्रण √ह(वपा) द
 हरयाण- ण निय ४, २^१, या ५
 १५^१ -ये या ५, १५^१
 हरस्- √ह(वपा) द
 हरि (वप्रा)^{१०}- पाठ ४ ११९, पाण
 ५, ९, १०० ३, १०८, ८, २, ९^१,
 ४, ३९, -णैरय आथी २, १३,
 ७, ६ २, ३ ४, १०, शोथी, अप
 ४८, ९४ वृदे ४, १४०^१, निप
 २, ३, या ७ २४^१, -रय शीव
 २, ८, ९^१, -नि काथी १०,
 ८, १^१, आपथी, बाधुथी ४ ९६
 ३, ४, शीत् १२७, २, अप
 ६१, १. ३ या ४, ११,
 -निप विध १ १६, -णैरिभि
 आथी ७, १२, १५ ८, ८, २,
 शोथी, -रिग्मात् काथी १ १,
 १५ बौधी ३, १९ ९^१, या

a) पामे वैध १, १७८३ ण द । b) परस्पर पामे । c) = मात्प्रहविशिये । d) पामे वृ २२४ हृ
 द । e) वैध १ द । f) वृ पाणम । g) पामे वैध १ हनुप्याम् ऋत ४३ ६ टि द । h) हनु
 ह्यपरि पाणम । i) व्यप । j) हनुप्यासीय पाठ । k) ह्यन्ता इति [पले] दे, ह्यन्ता इति एणुण्णसोप पाठ
 l) वैध २, ३४ द । m) आतिल्लक्षणनैव सिद्ध गणराटो व्यर्थ इति कैपट । n) लोच वैध १ ह्युप मा
 ७, ४७ टि द । o) = शिव । p) = हरत् । q) विप, नाप ।

उ ११, -रिम् ११५ २ ४
 १४, ५ १४, आसिष्ट २ ४,
 १०-४, ११, ७, ११२९,
 वीष्ट, अप १, ३१, ३, या छ
 ११११, -१री आधी ६, ३, ६,
 ३, १०x, वाधी, अष्ट ४८,
 १४, वृदे ३, ८९९, निष १, १५,
 -१री आपधी १२ १७, ३, वीधी
 ८, १६ १३, द्विधी ९, ४, ५०,
 -१रीणम् आधी ७, ११, २२,
 वीधी ७, १ १२x, वीधी, -रीम्
 छम् ३, १२१, -१रीम् वीधी
 ५ १५ १२, १४, वाधी १, ७,
 ४, ५१, -१री ११धी ८, १७,
 १, १२, १६, १, काधी, वृदे ४,
 १४४, या ५, १२.

हारिक- पा ५ ३, १०८

हरि केव- कि ७३, -१वा आपधी
 १७, ३ ७, वीधी १०, ४५ १३,
 माधी, वृवाधी ४, ७५ १२,
 ३४, -नाय गीध २६, १२१

हरि चन्द- पा २, ४, ११०

हरि-व्यसन-सनित- -धे अप १५,
 १२

हरि-व्यस- स्वचम् आपधी ५,
 १०, ४१०

हरि पप सरस्वति मित्रावरण-

वन्- वदे वाधी १, १, १६

हरि मत्- पा ८, २, ९

हरि मयु- > ऋण-सम्बन्ध- ऋ
 क्रमा ५, २७१

हरि मयु- > ऋणी (व) वा-

-यायाम् क्रमा १४ ४०१

हरि योजन- -नाय प्राप्ता १४,
 ४०१

हारियोजन- -१न आधी ६,
 ११, ८९, वीधी ८, १६ १०,
 माधी २ ५, ४, ३, द्विधी ९, ४,
 ४७, १०, ५, १४९, -नम्
 आपधी १३, १७, १, ४, वीधी,
 -नस्य आधी ६, १२, २१, वीधी,
 -नाय आधी ५ ३, ८, वीधी
 १५, १, २७, -नाय आधी २, २,
 ५, २९, -ने आधी ५, ५, २०,
 वाधी २५, १३, १७, द्विधी ८,
 ६, ५, मीसू ३, ५, २९, -नेन
 वीधी ८, ७, २१, द्विधी.

हारियोजनी- नी. वीधी

६, ३४ ४, -न्य दाधी ६, ३,
 १६, काधी २, ११, १०.

हारियोजन-प्रदण- -नाम्

काधी १०, ८, १

हारियोजन होम- मम्

वैताधी २३, ९

हारियोजना(न अ)तिश्रय-

प्रेषित- -त वाधी ३ २, १, ३१

हारियोजना(न अ)न्त-

-न्तम् वाधी १४, ५१, ४

हारिजन- -नम् काधी ३

२९ २, -नस्य काधी २९ १

हरि वन्- पा ५, १, १००, -१०व

आधी ६, २, १२, ३, १६, ४,

१०, आधी १४, २१, २, काधी,

माधी २, ५, ४, २४, -वन्

वीधी १७, ३ ३ द्विधी ९ ७,

२६, वाधी, -वन् आधी २,

१२, ३०, ६, १२, ३१, वीधी ८,

१७ १, -१वन् आपधी १२,

४, ६, १३, १७, २, वीधी, -वन्

छम् ३, २ १९, -पन्थम् वीधी

८, ११: १२१, -नाय आधी

५, ४, ३१, वाधी, वृदे ४, १.

हरिवती- -नी माधी २,

५, ४, ३१, -नीय वीधी १५

१०, -न्य छम् ३, २ २०

हरिवद्-योनि- -नि निम् ८,

८ ३१

हरि-वन- पा ८, ४, ३९

हरि वरुण वरेण्य- -न्या वाधि २,

३२, नाशि २, ३, ४

हरि-वर्ण- > हारिवर्ण- -र्णम्

वैधीय १२, वाधी ७, १, १, छम्

१, ५ ३, ११, २ १५ २३,

-र्णस्य निम् १०, २ ४०.

हारिवर्ण(षे ष)र्ण- षे

लाधी ६, ८, १२

हारिवर्ण(षे ष)ष्टवद्-

-व्दे निम् ३, ३ ३१, ३५

हारिवर्ण(षे ष)द्वितीय- -वे

निम् ३ ३ २८, ३१, ३५

१११-वर्ण- -वसम् आपधी १४,

२, १३, वीधी १७, ३ ६, द्विधी

२, ७, २१

हरि-वास्य- -वी वाप २, ४, १४

हरि वाहन- न वृदे ४, ७७, ५,

१५७, ८, ३५

१४१-वृत्त- तम् वाधी १, ५, २,

१४१

हरि-वर्ण- १वम् वाधी १, ४, ३,

द) पामे वैप १ हरिभ्याम् शी २ ५ १ टि द ।

द) छ पागम । e) पामे वैप १ हरिविन्तम् ष ३ ३, ५ टि द । f) वैप १ द । g) वैप < हारियोजन-1

वैप १ द । h) पामे वैप १ व्यपित्तु मै ४, ९, १२ टि द ।

j) पामे वैप १ हरिविन्त काष्ठ ४, ११ टि द । k) मन्त्रप्रतीकानां द्वय । l) वैप २, ३ख ।

m) = साम विद्याप- ।

५; द्विधौ ३, ३, ३६.
हरि-स- पा ५, २, १००.
हरि-शयल-कापोत- -त्वात् स्य
६३, १, ३.
हरि-श(य>)वा^०- -या शुभा ३,
१२८^०; -याम् काश्री ८, २,
३६^०.
हरि-शुभ-स्य- -यम् बौधौ १८,
४६:१५.
हरि-श-चन्द्र^०- पा ६, १, १५३;
-न्द्रः शाश्री १५, १७, १; वाप
१७, ३२; -न्द्रम् उरु ६, ५^०;
-न्द्रस्य शब्द २, १, २८.
हरि-शो^०-> शो-निघण्टु- -यम्
बौधौ ११.
हरि-शो^०- -शाः बौधौ १०, २४:
११^०.
हरि-स्तुति- -तिः शब्द २, १०, १६.
हरि(>)शि-शय(>)वा- -या शुभा
३, १२८^०.
हर्ष(रि-स)क्ष- -क्ष माष्ट २, ५:
१३^०; -क्षः पाठ १, १६,
२३^०.
हर्षदण- -दणः वायु ३५, १^०.
हर्ष(रि-स)द्व^०- पाठ ४, १,
१०४^०, -द्व काश्री १०, ५,
११^०; काश्री ३, ३, १; शशा
८, ४२; -द्वाय काश्री ३, १८,
१५; कापथी ८, २०, ५; वायु

३, १, ५^०.
हर्षद्व- पा ४, १, १०४.
हर्षद्वि- -द्विः बौधौ १४८:४.
हृरिक्लिक्का^०- -का, -के शाश्री
१२, १८, ३, ४.
हरि-चन्द्रन- प्रसु. हरि- ६.
हरिण^०- पाठ २, ४६; वाग ४, १,
४१; पावा १, २, ६४; कि ३३;
-णः शाश्री १६, ४, ४^०;
कापथी ९, १४, १४x४; भाश्री;
-णम् स्य ७०^०, २३, ७; सभ
३, ७; -णस्य कापथी १३, ७,
१६^०; वैश्री; वैताश्री ६, ११^०;
-णाः अप ७१, ३, ३; -णे भाश्री
४, ६, ३.
हरिणी- वाग ४, १, ४१;
-णी बौधौ १५, २०:३१^०; रि
७, १६^०; -णीम् बौधु १०२, २१.
हरिण^०- -णम् आपथ १, ३, ३;
द्वि १, १, ७५; -णेन विप ८०,
१.
हरिण-चर्मन्- -र्मणि बौधु १६, ३.
हरिण-गुणका^०- -का कापथी ९,
१४, १४; भाश्री ९, १६, १७;
द्विशी १५, ४, २१.
हरिण-म्बु(त>)वा^०- -त्वा रि ५,
३६.
हरिण-रह^०- -रः स्य २३, ४, ३.
हरिणी^०- -णी बौधु १०६, ७^०;

स्य १८, १, १७; माति ९,
११; माति २, १३; १४; १६;
-नीभिः वैताश्री ३७, २४; बौधु
८०, ३५; ८२, ३१; ८३, २०; २३;
८४, १३; -णीम् माति ९, १२.
हरिणी- -हरित- ६.
हरित्(वप्रा.)^०- पाठ १, १७; पाठ ८,
२, ९; -रितः आश्री ५, १९, ३^०;
आपथी १९, १३, ४; बौधौ १३,
३०: ८; द्विशी २२, ४, १९;
स्य ४८, ७६; ८२^०; ९४; वृदे ४,
१४०:६; निघ १, ६^०; ११; १५;
२, ५^०; वा ४, ११^०; -रिता
शाश्री १८, ११, २१; -रिताम्
वैताश्री १४, ११^०.
हरित्-वर्ग- > इहिरण्यवृत्तस्य-
दि- -दिभिः वायु १४, ६^०.
हरित्-स्य- पा ८, २, ९.
हरित्, मा(वप्रा.)^०- पाठ ३, १३; वाग
३, १, १२^०; १३; ५, ४, ३^०; पावा
१, २, ६४; -तः कापथी ९, १९,
२१^०; बौधौ १४, १४: १२^०;
वैश्री २०, ३०: ६^०; द्विशी १५,
८, १६^०; याति २, १; -स्य
कापथी ११, ४, ६; १६, १७, ७
२४, १; १९, ११, ६; भाश्री; स्य
४८, ११^०; -का^० याति २, १३;
१४; -ताः कापथी ३, १३, ५^०;
भाश्री; स्य १, ९, ३; ३; -ताय

a) वेप १ ६. b) पामे. वै १ हरिसया डि. ६. c) = उपचारात् उपसद्-। d) स्य.।
e) = साम-विशेष-। पस.। f) विप.। g) = बालपद-विशेष-। पामे. वृ ३०३ j ६.। h) प्रथित्तया
निर्देशः। i) सपा. माष्ट ३, १०: ५ हर्षज्वने इति, द्विष्ट २, १९, ६ हर्षज्वणमाय इति पामे.। j) पामे. वेप १
हृरिक्लिक्का डि. ६.। k) = हरिण- (वै १ ६.)। l) पामे. वै १ हरिणः मा २३, ३० डि. ६.। m) पामे.
वेप १ हरिणस्य शब् २, १६३, १ डि. ६.। n) = हृन्दो-विशेष-। o) विद्याराथे सन् प्र. (वा ४, ३, १५४)।
p) पस. उप. = पौतिका-। q) उप. = १४४-। r) ना. (सोप-विशेष-), रात्रि-विशेष-), ऋण-विशेष-।
[श्री १८, २, ११-१८]। s) पामे. वेप १ हरिणः शब् ३५, १ डि. ६.। t) = भृगु-विशेष-। u) = दिव-।
v) 'शुभो, यथा' इति द्विपदः शोषः। (द. संस्कृतः डि.)। w) व. पावम.। x) पामे. वेप १, २५५४ ० ६.
y) = रात्रि-विशेष-। z) पामे. वेप १ हरिणम् श्री ७, १०४, १ डि. ६.।
वैप-प्र-८४

वायुश्री ४, ५९^१. १०. -ताम्
 आपश्री १४, २४, १२, वाश्री ३,
 ४, ३, ४६, -तानि द्राश्री ६, ३,
 २३, ताश्री २, ११, १६, अप
 ५५, ३, २, -ते अय ५०, ५, ४,
 ६३, ४, ५, -तेमि आपश्री
 १४, २१, ३, द्वित्री १५, ७, १६,
 या ७, ७, -तेम्य अप ४६, ९,
 ५, अक्ष ११, २२, -ते^१ आश्री
 २, ८, ८, माश्री १, ३, ५, २६.

हरिणी-नी आपश्री १०,
 २८, ३, माश्री १०, ११, १५,
 द्वित्री ७, ३, १६, माश्री १,
 २७, १, -नी आपश्री १३,
 १७, ९, वाश्री १, ४, १, १०,
 द्वित्री ९, ४, ५५, आश्री ३, ८,
 २-३८^१, माश्री -नीमि वाश्री
 ३, ४, १०^{१०}, -नीमि आश्री
 २, ४, २५^१, आपश्री ६, ९, ४^१,
 वाश्री ३, ६, ६^१, माश्री १,
 ८, ३, २, वाश्री १, ६, ४,
 ३, द्वित्री ३, ७, ६^१, -पवा
 आपश्री १६, १४, १, वैश्री १८,
 १२: ८, द्वित्री, आश्री ३, ४,
 १ १६, -पवी माश्री १, १, १५
 हरित(त>)ता^{१०} -ता वाशि
 २, १६, माशि ९, ११, -तान्
 माशि ९ १२.

हरित क- पा ५, ४, ३
 हरित कुश- -वात् वाश्री १०, ८,
 ८, २५ १३, २०
 हरिण ग(सि >)नी^१ - माश्री
 आपश्री ६, ९, ४, द्वित्री ३, ७, ६१

हरित-गोमव^१ -यम् कौश १९,
 ८, -यात् गोश्री ४, ८, १९, -ये
 वाश्री ४०, १४, -येन शश्री ४,
 ३, १७.

हरित-गोवहृत्-विण्ड- षटे माश्री
 १, २१, ९

हरित गम्भन्- पा ५, ४, १२५

हरित वृण- -गामि वाश्री ६, १२,
 ७.

हरित विपौलिका- -कानाम् कौश
 ११६, ३^१

हरित-वर्हिस्^१ -र्हिपम् कौश १८,
 २०

हरित-वध- -वान् आपश्री १५,
 २१, ८, वीश्री, वीश्री ३, ४, ३४.

हरितवध शमीधाम्य-वाक-
 -कानाम् माश्री ६, १८, १४.

हरितवध शमीधाम्यौ (न्य-भो)
 पथि वनस्पति-मूल-फल शाक-

-कानाम् वीश्री २८, ५: ६.

हरितवध वाक-शमीधाम्य-
 -न्यवानाम् आश्री ६ ११, ७

हरित रजत- नौ आपश्री १९, २,
 ६^१

हरित-वर्ण^१ - जं या ४, १९

हरित-सूक्- -रेण कौश २६ १८

हरित सङ्ग^१ -न्यवम् वाश्री १६,
 ९, ११.

हरिताप पा ३, १, १३, १३

हरि(री^१)त^१ - पाठमो २, २, १४४,
 पाठ ४, १, १००, १०४, -ता^१
 वीश्री २२ १, ४, -तानाम्
 आपश्री २४, ७, ११६.

हरि(री)त- पा ४, १, १०४;
 -त वाश्री २, ६, आपश्री १, १३,
 ११; १८, २, १९, १२xx, वीश्री,
 -तम् शेष ११६: ४२; -तस्य
 तैषा १४, १८, -तानाम् वीश्री
 ४, ३, ६^१.

हरितापन- पा ४, १, १००.

हरित सुरत-विहृ शङ्ख-दर्भ-भैम-
 गय- -वानाम् आश्री १२,
 १२, ३.

हरिणा(त-आ)दि- -दिभ्यः पावा
 २, ४, ६७.

हरित्य- -स्याः वीश्री ४१: १२.

हरि(री)त(क>)नी^{१०} - पाठमो
 २, २, ४०, पा, पाठ ४, १, ४१;
 ३, १६५

हरितकवा(नो-आ)दि- -दिषु पावा
 १, ३, ५३.

हरितवस^१ > हरितवस^{१०} - नौ
 अप १, ३, १.

हरितराश्रय आश्री १, २, २०^१

हरिताल^१ - > षक-वर्ष^{१०} - यम् अप
 ७०^१, ११, २५

हरि-त्वच्- हरि- द.

हरिद्रा (वप्रा.)- पाप ४, ४, ५३^१,
 -द्राम् कौश २८, ४^१, -द्रायै
 माश्री २, १३, ६^१

हरिद्र- पावा ४, २, २,
 -द्रम् वाश्री २५, ८, ३,
 आश्री १, १९, ११, कौश २, १,
 १०, वाश्री ११, ६६, आपश्री
 १, ३, २, द्वि १, १ ७४

हरिद्र^१ -द्र अप ५३, ४, ५

d) पामे १ २७८१ द. १ b) = वीश्री सूची- (हृ वाश्री २०, ७, १) । c) सय आपश्री २०, १८, ७ वीश्रीवाशि.
 इति, द्वित्री १४, ४, १६ हरिणापोमि इति क पामे । d) = हरिता- । जन्तुत शीर्षे । e) = स्वरमणि-विशेष- ।
 f) वस । g) पूष = वारं । h) रहरौत- द. १ । i) न्यप । j) वहु < हरित- । k) परत्तरं
 पामे । l) पावि पाठ । m) = पन्था- । न्यु ३ < √ हृ इति पाणम प्रथ । n) विप (पूर्वावाज) । o) = पाठ-
 विशेष- । p) वप = वर्षे । q) नाप (द्वयो इति नभा) । r) = देवता विशेष- । s) हरिद्रः इति सप्तर्षिं द्वि ।

हरिद्रा-नुद्दुमा(म-बाभा)>म-
-म० अण ५०, ६, ४
हरिद्रा-पत्र^१- न्यागाम् अण १७, १, ३
हरिद्रा(दा-अ)रण-संनिभ- भा
अण ६३, ४, ९
हरिद्रिक- पा ४, ४, ५३
हरिद्रौ(दा-ओ)दन-भुक्त- न्तम्
बोष् २६, १८
हरिद्रायणी- (> ष्यणिक- पा)
पाण ४, ४, ५३
हरिद्रु(बधा)^०- पाठ १, ३४, पाण ४,
३, १-९०^०, ४, ५३^{००}
हारिद्रविन्- पा ४, ३, १०६
हारिद्रविक^१- कम् या १०,
५
हारिद्रवीषा^०- या चञ्चु
२ ७
हरिद्रुक- पा ४, ४, ५३
हरिद्रु-य(खं)> षीं-> ष्यणिक-
पा) पाण ४, ४, ५३^०
हरि-पूष^० प्रस् हरि-द्र
हरिमन्- पाठ ४, १४८, -ईसा
बौधौ २, ५: २२, -साणम्
आपधौ ४, १५, १^१, भाधौ ४,
२१, १^१, द्विधौ.
हरिम देवता-> ष्यण- न्यम् अण
१, २२^०
हरिमन्त^०- अत ऋष २, ९, ७२.
हरि मन्तु- प्रस् हरि-द्र
हरिह^० नाधौ ९, ५, २^१
हरिव्यत्- प्रस् ✓ह् द्र.

हरीकण^१- (> षीं- पा) पाण ४,
१, ४१
रहरीत- रहरीत- द्र
रहरीत^१- पाठमो २, २, १४४
हरीत(क)>की- हरितकी- द्र
हरीमन्- पाठना ४, १६१
हरी-शया- हरि- द्र
हरेणु- पाठ २, १.
हर्तुकाम- प्रस् ✓ह् द्र
रहर्तु^०- (> हाव्यं- पा) पाण ४,
१, १५१
रहर्तु- ✓ह् द्र
हर्म्य^०- पाठमो २, ३, ४, -ईर्म्यम्
आपधौ ४, ५, ३; भाधौ ४, ६,
६, नाधौ, -स्यामि आपधौ १५,
२१, ९, बौधौ ९, २० १८, भाधौ
११, २१, २०, २२, १२, बौध
ईर्हाव्यं- ईर्म्य^० आश्रिण ३, ८, २
१८, १९, बौध १, १५ २८^०.
✓हर्व्य^१ पाषा म्वा. पर गतिक्रमणे,
हर्मति आपधौ १७, १८, ११^१, अण
४८, ३१^१, निप २, ६, १४, या ७,
१७
हर्वत^०- पाठ ३, ११०, -ईंतम्
आपधौ ५, ६, ३ बौधौ, -त
आधौ ६, २, ५^१, शोधौ, ऋष
२, ८, ७२^०, साम १, ११७^०,
२, ८, ३०^०, -ईतम् आपधौ
१४, २, १३, बौधौ १७, ३ ५,
द्विधौ ९ ७, ७१, ध्रुम् २, ४
१४, ५-१३, -ताय ऋष २.

९, १९, उनिम् ५ ३२
हर्व्यत्, हर्व्यदण- हरि- द्र
हर्व्यजन्- न्यमे माण ३, १० ५^०
हर्व्यजायन्- न्याय द्विण २, १९,
६०^०.
हर्व्यश्च- हरि- द्र ।
हर्व्यपीषा^०-> ष्या नदी-तट- डे बुरे
५, १३८
हर्व्यं, हर्व्यण- प्रस् ✓ह् द्र
हर्व्यी(क)>का^१- का ऋषा १७, २०,
निम् १, ५ २४
हर्व्युल- पाठ १, ९६.
✓हल् वाषा म्वा पर, क्लिबने.
हल्- पा ३, १, १४०, पाण २, ४,
३१, ४, २, ४५^०, ४९, ५, २, १३१
शाल- पा ४, २, ४५.
शालिक- पा ४, ३, १२४, ४,
८१
हल् वन्ध न्धा^१- (> द्वावन्ध-
पा) पाण ४, २, ४५^०
हल् ससर्ग- न्ये माण २, १५, ६.
हल् सूकर- नयो का ३, ३,
१८३
हला(ल-अ)भिवोग^१- न. गोय
४, ४, २६
हलाभिवोगा(ग सा)दि-
दिपु क्त १ ५, ७.
हलिन्- पा ५, २, १३१
हली(ल-ई)पा- पावाण ६, १,
९३
हल्य, रया- पा ४, २, ४९, ४, ७७

- a) मन्ते वस । b) वैत १ द्र । c) स्वप । d) वु पाणम । e) = सुगन्धि-द्र-भविशेष- ।
f) = श्राद्धाण । तस्यदमीवत् ठक् प्र उत (पा ४ ३, १२४) । g) = मैत्रायणीवशाखा- वा तदम्पेत्- वा ।
h) ष्मा इति पाठ^१ यनि शोध (ल ण) । i) पाषे वैप १ इतिपाण् शौ २, ५, १ टि द्र । j) = पलिन् ।
k) सपा शौ १८, ४, ५५ हर्म्यम् इति पाषे । l) या २, १०, ७, १७ पराण् द्र । m) = पाल्यद्र विशेष ।
n) पाषे १ २७८ १ । d) हर्व्यजायन् इति सस्वर्त् टि १ । p) वैत < हरिद्रपीषा- । q) = एन्दो-
विशेष । r) वाव, (धीर-) । s) हल्-, वन्ध- इति पाणम । t) [१५६] पाषि
सापदा, पाठ ।

इहलि^०- पाठ ४, ११८.

✓इलि ११, पावा ३, १, २१.

इत्या (लि-घा) दि^०- दिम्ब्यः
पावा ३, १, २१.

इहाल- पा ३, १, १४०.

हलका^०- (> किम्-).

हल-यन्थ- ✓हल् द.

हलम् पाग १, १, २०^०.

हल-संसर्ग- प्रथ. ✓हल् द.

इहलि^०- पाग ४, १, १२६.

हालेय- पा ४, १, १२६; -वाः
बौध्नी २७:६.

हालेय-बालेय-मुषिकापुत्र-पर-
षेय-सहोद-कालीना (न-घा)
मुजावर-द्विपर- -राम् बौध्नी
२, ३:३.

हल्य- ✓हल् द.

ह्य- ✓हे द.

ह्यन^०- नम् वाए ३. १४; अय ३,
९, ७:१०, १४; बौध् २, ३, ६०;
-ना वाधौ १५, ८, २०; -ने
काधौ १८, १, १६; बौध्नी २०,
१७: ३१; २०:१२; २५: १८;
२१, ७: १४; कैश्रीवा ३२^०;
-नेपु आगधौ १२, १४, १५;
द्विधौ ८, ४, १७; लय ७०^०, ३, ५.
ह्यनी^०- -नीम् कैश्री ४, ४:
१, ५; २, ५; -न्या वैश्री ५, ५:
१, -न्याम् काधौ १०, २, ४; कैश्री
४, ४:१०; ६:५, ५, २:४; ५:८.
ह्यन-मास- -नाम् वैवाधौ २२, १२

ह्यन-बोध- -गः कौसु ६, २१.

ह्यन-धुत्^०- -धुतः काधौ १०, १७,
६; द्विधौ २३, १, ५६; भाशि १८,
-०धुतः अग्रा ८, २१; या ६,
२७.

ह्यना(न-अ)हं- हं: ना १०, ४२.

ह्यमान- ✓हे द.

ह्य-यर्जम् ह- द.

ह्यिनामृधौ वाधौ ३, २, ३,
२२.

१, २ह्यिण्य- ह्यित्- प्रथ. ✓हु
(दाना^०) द.

ह्य-विसर्ग- , जनीय- ह- द.

ह्यीमन्- ✓हे द.

ह्यै^० वाधौ २०, ३, १.

ह्यव्य- ✓हु (दाना^०) द.

इह्य- ✓हे द.

इह्य^०- -न्या^० द्विधौ १५, ३, २; कैश्री
२: २०^०; द्विध १, १९: ४३^०;
-०व्ये काधौ ९, २, ३; काधौ
३, ६, ३.

ह्य-शब्द- ह द.

✓ह्य^० पाथा म्ना. पर. हलने, हलति
अप ७२, १, ५; हलन्ति कौसु
१०५, १; अप, हलैव माधौ २,
१, २, ३५; कौसु.

ह्य^० > ह्यता-सुद^०- सुद^०
द्विधौ ६, ७, ८; द्विध १, २६, ३.

ह्यता-सुद^०- -दौ अग्रा ३, ४, १.

ह्य- पा ३, ३, १२; -ह्यताम्
आमिष्ट ३, ७, १:२०; बौधि १,

१७: १८; अग्रा २, ६४.

ह्यन्- -सयसु कौसु ९३, १३;
-सद्विः अय ६८, २, ४२; -सन्
आमिष्ट २, ६, १: ४; गोष्ट; बौध्
१, ५, १५; वाध १५, १८;
-सम्भः अप ७०^०, ७, २.

ह्यन, ना- नम् माधौ २, १, २,
३२; -ना या ३, ५; -नाम् या
९, २१^०; -ने अग्रा ७०^०, ८, १.

ह्यित- -तम् अय ४१, ६, ४; -ते
सु २, ४.

ह्य, सा- पाठ २, १३; -घा या ३,
५^०।

ह्यस- पा ३, ३, ६२; ६, १, २१६;
-से अय ७२, १, ६.

इह्यस्य- पायम १८०.

इह्यस्य- -स्यात् अय ६८, ५, १२.
इह्यस्य-नील- -सः अय ३५, १,
१३.

इह्यसामदा^० काण २७, ३१^०.

इह्यसैता या ९, २.

इह्यस्त- पाठ ३, ८६; पा^०, पाग ५,
३, १००; पाग २, ४, ३१; ५,
२, ३६५, ३^०; -स्तः आगधौ
६, १२, ६^०; वैश्री; कौसु १, ५,
११^०; काण १, ९, २१^०; कौसु ३,
१०^०; अग्राय; -स्तम् आगधौ
३, ६, ९; ७, १४४; बौध्नी;
-स्तपो: काधौ ७, ३, ५; २५,
७, ३७; ज्यैश्रीका १७८; वैताश्री
२४, ११^०; आगधु; -स्तस्य

a) नाप. (महाहल-). b) हु. पाणि. c) हु १७८५ f द. d) हु ५४६ g द. e) व्यप. ।
f) वैप ह द । g) करणे हल । = अर्धगण, अर्धकाष्ठ- इति विद्याधरः । h) = यज्ञीय-पाठ- । i) व्यु. पाणे.
च वैप २, ३खं. द. । j) = रथेयु- । k) पाणे. हु १२६१ b द. । l) भग्या इति मुक्तो. । m) पावा १, ३,
१५ पठाशुः द. । n) उच्य. । उप. कर्तति क्विप् प्र. । o) पाणे. वैप १ इत्यामुदाः कौ ७, ६९,
६ टि. द. । p) < हस्त-क- । q) हु. पाका. । हस्तक- इति भाष्या. प्रथ. । r) हु. पायम. ।
३, ७, १३, १ टि. द. । s) पाणे. वैप २, ३खं. द्वेषुः संश्र १, ६, ४ टि. द. । t) पाणे. वैप २, ३खं हुक्षिणेन सैना

माशि २, ६; याशि १, ५६;
 -स्ता आश्री ३, १३, १४५;
 -स्ताव आपथी १०, ३०, ७३;
 द्विथी ७, ३, ३८; आण; -स्ताव
 बीथी २५, १० : ८; -स्ताभ्याम्
 आथी १, १३, १५; शोथी;
 -स्तासः आपथी ५, १७,
 ४; द्विथी ३, ४, ४८; या १३,
 ७५५; -स्ते आथी २, १६,
 ७५; शोथी ३, १३, १७५;
 काथी; -स्तेन काथी ३, ६, ८;
 ५, ३, ५४; १८, ४, २३; आपथी;
 -स्तेषु गौषि २, ३, २३;
 अप-धृष्ट, ४, १३; आपथ २,
 १७, १७; द्विथ; -स्तेः आपथी
 २१, १२, ९; अप २१, ४,
 ५; -स्ती आपथी १, १५, ४;
 २, ३, १५, १६xx; वीथी.
 हस्त-वृ- पा ५, ४, ३; पाण ५, २,
 ३६.
 हस्तकित- पा ५, २, २६.
 हस्त-कुण्ड- -ण्डम् अप २५,
 २, ५.
 हस्त-कौशल- -कैः वीथी ६, १५ :
 २३; २७ : २६; वीषि ३, ७, ३.
 हस्त-नात- -तः याशि १, ४५.
 †हस्त-गृह्य आपमं १, २, ८; आण
 १, ८, १; काण २५, ५; वीथ.
 हस्त-नाम- -†मस्य आशिथ ३,
 ५, ६ : १६; वीषि १, ५ : ४.
 हस्त-प्राह- -हरय या ३, ६.
 हस्त-ग्राहम् वीथी १७, १० : ६;
 पा ३, ४, ३९.
 हस्त-पठित- -तम् वप्र २, ८, १०.

हस्त-प्र- -प्रः वृदि १, ११०; निष
 ५, ३५; वा ९, १४५, १५५;
 -प्रम् आपथी २०, १६, १२;
 ऋम २, ६, ७५; श्रुथ ३, १२६.
 हस्त-च्छेदन- -नम् शंष ३२५.
 हस्त-च्युत- -तम् माथी ९, ४,
 ५५.
 †हस्त-च्युति- -तिम् माथी ३, १,
 ५, ३९; -तीं आपथी १४,
 १६, १; माथी; वा ५, १०५.
 हस्त-छेद- -दम् अप ६८, २, ४५;
 -वे अप ६८, २, १०.
 हस्त-त्र- -त्रम् दाथी १०, २, ८;
 लाथी ३, १०, ७.
 हस्त-त्रय- -यम् अप २२, ७, २.
 हस्त-त्राण- -णम् वृदि ५, १३२.
 हस्त-दृष्ट- -त्ताः वाप १४, ३१.
 हस्त-दोष- -याः माशि २, १२;
 याशि १, ४५.
 हस्त-द्वय-मित- -तम् काण्ड ४५;
 ३.
 वरत-नख-नवम्-ओष्ठ- -छानाम् अप
 ६८, १, ४२.
 हस्त-पानि-यादेश-मात्र- -त्राणि
 काठथी ११६.
 हस्त-पाद- -द्वयोः वीथ ३, १४ : ६;
 -दात् वीथी २, ८ : १७; ५,
 १७ : ६xx; वीथी ९, ११ : १६;
 वीथ २, १०, ४५; -द्वी आशिथ
 २, ६, २ : १.
 हस्त-पादा(द-म)क्षि-तिरस-
 -नसाम् अप ६४, २, २.
 हस्त-प्रकृति- -तिः या १, ७.
 हस्त-प्रत्युति- -त्या वा ५, १०.

हस्त-प्राण- -सम् शंष २८४.
 हस्त-प्रण- -णः याशि १, २६.
 हस्त-माव- -त्रम् द्विथी १४, ३,
 ३७; वीथ १, ८ : ७; अप २३,
 ६, १.
 हस्त-वर्तम् पा ३, ४, ३९.
 हस्त-वत- -तम् अप १८, १, ३.
 हस्त-सेरुध- -न्धाः आपथी २०,
 २२, ९.
 हस्त-सितक- -क्याः द्विथी १४, ५,
 ८.
 हस्त-संज्ञान- -नाव शंष २१८.
 हस्त-क्षीन- -नम् शेषि १५८; माशि
 ३, २; याशि १, ३९, ४१; -मानि
 माशि ३, ४; याशि १, ४०.
 हस्त-होम- -मे वीथ १३८, १५.
 हस्ता(स्त-प्र)प्र- -मे शेषि १५६;
 याशि १, २१; नाशि १, ६, १३.
 हस्ता(स्त-अ)दृगुलि- -लिम् वाण
 ३, १०.
 हस्ता(स्त-प्र)दान- -ने वा ३, ३,
 ४०.
 हस्ता(स्त-आ)दाविन्- -विताः वीथ
 १, ८, १.
 हस्ता(स्त-अ)तु(ग>)गा- -गाम्
 माशि २, १४.
 हस्ता(स्त-अ)ववेजन- -नम् मम
 ११, ३.
 हस्ता(स्त-प्र)वृत्- -नम् अप २४,
 ५, ४.
 हस्तित- पा ५, २, ३१.
 हस्ते/हृ पा १, ४, ७७.
 हस्ते-गृह्य वीथ ७६, १०; पाण २,
 १, ७२.

a) स्वार्थे प्र. । वृ. १ २७८४ वृ । b) वृष. = प्रमाण-वचन- । c) वीथ १ द. । d) पामे. वीथ १
 हस्तच्युतम् की १, ७२ टि. द. । e) पामे. वीथ १ मे २, ७, १२ टि. द. । f) = हस्ता- । वर. वप. वरले
 <वृषि । g) = हस्त-प्र- । h) वप. । i) परस्परं पामे. । j) वप. <मा/वा (शने) । k) वानप्रत्य-
 विरोध- । l) वप. <मा/वृ(वरोधे) ।

हस्तो(स-उ)जत- १म् वीथी ११,
 ८:१४
 हस्तो(सि-उ)पयाम^१- मै. शंभ
 १०७^१
 हस्त,१वा^१- पा ५, १, १८,
 -०स्तम् आपमं २, १७, २१,
 -स्तयानि आपथी १०, ५, १३,
 माथी १०,३,२०, द्विथी ७, १,
 ३८, -स्तयाम् माथी ३,१,१३.
 २हस्त^१- -स्त^१ वीथी ६,१५ १५१.
 ३हस्त^१- -स्त काथी ७,३, द्विथी ३,
 २,४, वीथ, -स्तम् अथा ३, १,
 -स्तस्व अथा ६,१, -स्तयाम् शोथ
 १,२६,११, वैथ ३,२०,६, अथा
 १२, २, -स्ते आपथी ५, ३,
 १२, वीथी १७, १९:१३;
 माथी, -स्तेन अथ ३ ५, ३,
 शोथ ३, ५, ४, ४, १, १, शोथ
 ४ ५, २, पाण्डु, १०, २, आगिथ
 ४हस्त- पा ४,३,१४.
 हस्त रोहिणी- ०थो वैथ २, १३
 २.
 हस्तो(स-उ)ज (२>)०- राभि
 वैथ १,० ३
 ५हस्त^१-> १हस्तम्- पा ५,१,१३३,
 पाण्डु, १, ५६, -स्तिय, वीथी
 १५ ३,१४, काथी २२,२, २४,
 आपथी १८, ३, ४, ५, वीथी,
 पाण्डु २, २०:१३^१, -स्तियम्
 आपथी १३,५,४१, १४,११,३१,
 १२, ८, माथी, -स्तिया या ६,
 १२, -स्तियाम् आथी २,१,१४,
 अथ १८, ३, ५, -स्तियि वीथी

२,५:१७१, -स्तियि: वापथी
 ३, ७५:१२, कौम् १०६, ७१,
 अथ १४, १, २; -स्तो थापथी
 १३,६,११, २२,१७,२१, वीथी
 २४,५ २१, वापथी.
 हस्तिनी- नी अथ ७०^१,
 ११,२, -नीम् अथ ६८,२,३२,
 -न्य अथ ६७,४,४, -न्या अथा
 ३, १, ७१, -न्याम् अथ ७२,
 २,७.
 हासिक- पा ४,२,४७.
 १हासिकम्- पा ५, २, ३८.
 हासि कर्पू- (> हासिकर्पूक>]
 का- की-पा) पाण्डु, २, ११६
 हासि प्र- पा ३, २, ५४.
 हासि प्रसन^१- नानि कौम्
 १४,१.
 हासि वृष- पा ५, २, ३८.
 हासि-दन्व- न्तम् अथा १९, २
 हासिदन्व^१- न्तम् कौम्
 १३, २
 हासि-द्वयस- पा ५, २, ३८
 हासि-नाद-प्रमोदि(२>)नी-
 नीम् पाण्डु २, १३, ६१.
 हासि-नीरायन- नम् अथ १८,
 १, १.
 हासि-पाण्डु^१- पा ५, ४, १३८,
 पाण्डु, १, ११२^१.
 १हासिपद- पा ४, १, ११२.
 २हासिपद- पाणा ४, ३,
 १३१
 हासि-पुरुष^१- नम् वीथी ११,
 ६ ३१, १२, ७ ४२

हस्ति-पृष्ठ- ष्टे वीथ १५, १,
 हस्ति मात्र- पा ५, २, ३८.
 १हस्ति मुण^१- न्तम् आसिण्ड २,
 ६, ३: २९; वीथ २, ५ २१.
 १हस्ति-यदास- न्तम् आपमं २,
 २१, ३१, पाण्डु, १, ५, २, द्विथ
 १, १२, ४.
 हासियवासिन्- षो आपमं
 २, २१, ३११.
 १हासियवासिहस्तिवर्च-
 तिन्^१- सी द्विथ १, १२, ४१.
 हासि-युग्म- न्मेन अथ १४, १, ४.
 हासि-रथ- न्तम् अथा १३, २.
 हासि-रथ-दान- नानाम् अथ
 १४, १, १.
 १हासि-वर्चस- पा ५, ४, ७८,
 -नम् पाण्डु ३, १५, २; द्विथ १,
 १२, ४, वीथ १३, १, अथ.
 हासि-वहाक-महावस- न्तानाम्
 वीथी १४, २, ३१.
 हासि-सूचक- कयो: पाणा ३,
 २, १३.
 हास्य (सि-भ)द्व- न्तम् अथ
 ३, १, १७, २, १, -द्वानाम् अथ
 १७, १, ४, ८४४, विथ ५, १८८,
 -द्वैव्यम् अथ १८^१, ८, १, -द्वैवै:
 अथ ७१, १९, ४.
 हास्यद्व-दीक्षा- न्त अथ
 १८^१, २, १.
 हास्यद्वया (ध-या) दि-
 दीनान् अथ १८^१, ७, १
 हास्यद्वयादि-दीक्षा- न्त
 अथ १८^१, २०, १.

a) उप अर्थ १।
 b) भेदार्थे यत् प्र।
 c) वैथ १ द।
 d) पाणे वैथ १ द।
 e) = ५हस्त- (वैथ १ द)।
 f) शोषार्थे १ २३१६ ह द।
 g) = नवास्ति-प्रमित- (तु वाचना)।
 h) उप कथे ह्युद प्र।
 i) = हासिदन्व-मणि (तु केषव)।
 निवारार्थे प्र।
 j) व्यप।
 k) तु पाण्डु।
 l) तमाहारि ह्य।
 m) "यथाथी हस्ति" इति द्विथ शोष. (तु Dujit
 [ZDMG ५२, ८३])।

हस्त्यश्वादिरीक्षा-
समान- नम् अप १८^१, ६, १.
!हस्त्यश्वादिदुग्धम्^२-
-पद अप १८^२, ६, ३.
हस्त्य(क्ति-अ)श्व-गो-रथ-यान-
-नेषु श्व ३२२.
हस्त्य(क्ति-अ)श्व-रथ-पशुक्ति-
-कम् अप ३, १, १०.
हस्त्य(क्ति-अ)श्व-वाह-ग्राम्या-
श्व- -उवानाम् अप १८^३, २, ३.
हस्त्य(क्ति-अ)श्वो(श्व-उ)श्व-नौ-
-गोपान- -नेषु विध ३०, १८.
हस्त्या(क्ति-आ)सेह्य- -णम्
पाठ ३, १५, १; भाष २, १९: ७.
हस्त्यो(क्ति-ओष्ठ>)छो^३-
-श्वः वीथी २०, १६: १४;
माथी १, १६, ६; हिथी १, ४, ३२.
श्वत्पो(क्ति-ओ)छ^४- -छो^५
आपथी १५, ३, १०; माथी ११,
३, ५; हिथी २४, १, १८.
श्वत्पो(क्ति-ओ)छ^६- >
हस्त्योच्छात्प^७- -स्त्रे वैथी
१३, ४: ४^०.

हस्त-वर्तम् प्रथ. १हस्त द.
!हस्ताम्^८ कौश ६२, १; अज
११, १.
हस्तावा(र(>)रा^१- -ता: हिथी १६,
६, ४१; -राम् आपथी २१, २०,
१, २; हिथी १६, ६, ४०.
हस्तावृत- १हस्त- द.
हस्ति-कर्पू- प्रथ. ५हस्त- द.
हस्ति-त- १हस्त- द.
!हस्तिन्- ५हस्त- द.
श्वत्स्तिन्^१- पाठ ४, १, ९९; २, ८०^२;
२हास्तिन्^१-> श्व-पुर- पा ६, २,
१०१.
हास्तिनाथन- पा ४, १, ९९; २, ८०;
६, ४, १०४.

हस्ति-नाद^२ प्रथ. ५हस्ता- द.
हस्ते✓क प्रथ. १हस्त- द.
हस्तोत्तरा- ३हस्त- द.
हस्तोन्नत- प्रथ., हस्त्य- १हस्त- द.
हस्त्याग्नि^३- -नयः वीथीप्र ३: १.
हस्त- ✓दत् द.
हस्ते^४ पाठ १, ४, ५७.
हा^५ पाठ १, ४, ५७; पावा २, ३, २.
✓हा^६ पावा. कुशे. पर. त्वागे,
जहाति वीथी २, ५: २५^७,
कृआमिथ २, ४, ५: १७^८;
३, ७, १: ११; वीथि;
कृजहामि आथी १, १२, ३७^९.

काथी १७, ३, १३; वीथी; माथी
३, १, २८^१; कृजहाम: वीथी
२, ५: २५; आमिथ २, ४, ५-
१८^२; कृजहाम: कृजहाम ३,
१२०; ४, ७७; कृजहाम आपथी
२, ३, १^३; माथी २, ४, २^४; हिथी
१५, १, ४९^५; आमिथ ३, ६, १:
२५^६; काथ २६, १२; ४५,
१२; वीथि १, १: २; अजहात्
सु २५, २: ४; कृजा ११, २: १२,
१०; अजहु: शाथी १६, ९, ७^७;
जहात् वीथी २२, १३: १२;
माथी ५, २, १०, ३४; शाथी १,
१, ११x; लाथी; कृजहु: काथी
२, १४, १७; वीथी ८, २:
१४x; माथी २, ४, ६, २६.
जहु^८ वा १४, ३०^९; कृजास्यति
आपथी १०, २, १९^{१०}; हिथी १०,
१, १५^{११}; इहास्यु^{१२} कृजाव १,
५; अहात् हिथी २, ५, ३१^{१३};
अहा: वीथी २४, १^{१४}; आपमं
२, १२, २^{१५}; कृजासीत् काथी
२५, ११, २५^{१६}; आपथी २, ३,
१^{१७}, वीथी; माथी २, ४, २^{१८}, माथी
२, १, २, ३६^{१९}; हिथी १५, १,
४९^{२०}; कृजासिपु: आ ४६, ६, १;
अम २, १०; ६, ४१; कृजास्था:
वीथी ६, ३०: १२; कृजासी:

वैहस्त^१- पाठम ११३
७हस्त(>हात्नाथन- पा.) पाठ ४,
२, ८०.
हस्त-क- प्रथ. १हस्त- द.
हस्त-रोहिणी- ३हस्त द.

a) श्वादीनां युग इति संस्कृतः टि. पाठः। b) वस। c) विव. (सुच्)। श्री. टीप् प्र.। d) विव. (वोगप्र)। वत्. उप. = जोष्ठ-। e) सप. श्वरे <> श्वरस्वे इति पाठे। f) वस। g) = प्रासुभे- (इ. MW.)। h) वैप १ द.। i) = गाथा-विशेष-। j) अप। k) अर्थः ?। l) तेननिर्गतोयः अन् प्र. (पा ४, २, 117.)। m) व्यप.। मृषिष्ठः पाठे. इति संस्कृतः टि.। n) भाण्डा. पाठि. 1994 देहै इति; दे, है इति ६८ (इ. सा. 1.)। o) विश्ववनिपादाधिपु क्रम्य. इति पाठम.। p) पा ५, ४, ४५५; ६, ४, ६६; ६, ५, ६६; ११६-११८; ७, ४, ४३; ४४ परामुष्टः द.। q) पाठे. वैप १ जुहासि शी ६, २६, २ टि. द.। r) पाठे. वैप २ जहामि क ४८, १६ टि. द.। s) जहं नः इति पाठः ? मनि. शोधः (इ. एपा. वीथी; शी ६, २६, २ व)। t) पाठे. वैप १ जहामि: मा ३५, १० टि. द.। u) इ. MW., पिन्या १५, ६, प्रयोगपरिजातः [इ ३०८] व। जुहुविति लभे. १। v) जगुः इति संस्कृतः टि.। w) पाठे. वैप २ शीत्स् १२, ३१, ५ टि. द.। x) वै १ पे २, ३, ५ टि. द.। y) पाठे. शोधय वै १ हासी ठे ३, १, २ टि. द.। z) पाठे. वै १ हासीत् हाठ ३५, १८ टि. द.।

वीथी ६, ६ : २२*xx; माथी
 १०, ८, ५^१; माथी ३, १, २८^०;
 जैथी ६ : ५^१; वीथ ३, ४, २६^१;
 वीथ १, ७, ३१^०, ३, ८, २१^१;
 फुदासिष्टम् आपथी १४, १९,
 ३; वीथी १४, ४ : २०; द्विथी
 १५, ५, १०; फुदासिष्ट आपथी
 ६, २०, २; थाथी १, ५, ४,
 २३; फुदासिष्टम् वीथी १४,
 ११ : ९; १६; २४; फुदासिष्टम्
 वीथी १७, ४२ : १३; आपथी
 २, ९, ६; आसिष्टः विध ८६,
 १६९.
 वीथे वीथी १४, ३ : ७^१;
 १० : २१; जैथी १ : ७; निम्न;
 वीथे वीथी ३, ५ : २२^१;
 बहुपन्ना आपथ २, १६, १;
 द्विथ २, ५, १; वीथे वीथी ६,
 ९, १३; वीथी २०, २२ : ६.
 हापथे अप ६७, ८, ३; वीथ
 १२१; विध २४, ५
 हाथ्या^१ पा ७, ४, ४४
 हाथ- नम् वृदे २, १२१; मीम्
 ६, १, ४३; -नात् नाम १३,
 ५०; गीथ २१, ११.
 हाथि- पाठ ४, ५१; पावा ३, ३,
 १५; -निः अप ३६, १०, २;
 ६८, २, ५६; विध ५, १२९; गीथ;
 -नी आथी २, १, १६; १०, १,
 १८; विध ७७, ३.
 हाथा आपथी १०, ६, १; थाथी;
 अपथ ३, ४^१.
 हाथा^०

हीन, ना- नः आथी १०, २, २;
 काथी; आपथी २२, १४, १८;
 २०, १; द्विथी १७, ६, ६६; ७,
 ११^०; -नम् आपथी २, २१,
 ११^१; ३, ११, २१^१; ६, २८, ३;
 वीथी; -नम् काथी २२, २,
 १९; -ना नाथि २, ६, ६;
 -नाः वा ६, २५; -नात् पापवा
 ५, २, १२७; -नात् विध ७१,
 ३; -नामि वीथ १, ५, ८४;
 -नामिः वीथ ६१; -ने आथी
 १, १, १८; वीथ ६, १ :
 ७xx; वीथ; -नेषु माथी ३,
 १, १३.
 हीन-कर्मन्- -मणः गीथ १८,
 २९.
 हीन-गमस्ति- -स्ती अप ७२,
 ३, ५.
 हीन-जाति-स्त्री- -स्त्रियम् विध
 २६, ६.
 हीन-तार- -रम् वीथी ४, १२, २.
 हीनतार-वृत्ति- -चिः द्विथ
 २, १, ८६^१.
 हीन-वृत्तः(ः) वाप २, ३७.
 हीन-ता- -ताम् कथा १७, ४.
 हीन-स्व- -स्वात् मीम् ६, १, ५०.
 हीन-मूल्य- -ल्यम् विध ५,
 १६६.
 हीन-वर्ण, णी- -णैः विध ५,
 १९; -णानाम् विध २२, २१;
 ३२, ५; -णाम् विध २२, ७२.
 हीनवर्ण-सेवा- -वापाम् वीथ
 २२, ९

हीनवर्णा(हि-व्वा)कोस्तन-
 -ने विध ५, ३६.
 हीनवर्ण-गमन- -ने विध
 ५, ४१.
 हीन-वृत्त-नाद- -वः वीथ १,
 ४४.
 हीन-सेवा- -वाम् वीथ २, २३.
 हीन-स्वर- -रेण वीथी २८,
 ११ : ३.
 हीन-हस्त^१ - -स्तः अप ६२, १,
 ३.
 हीना(न-अ)ङ्- -ङ्गः आसिष्ट
 ३, १०, १ : ५; वीथि ३, ५, २
 अप; -ङ्गाः अप ७१, १९, ४;
 -ङ्गात् आसिष्ट ३, ११, १ : ९;
 -ङ्गानि अप ७०^१, १०, ३; -ङ्गैः
 विध ६३, १४.
 हीनाङ्गी- -ङ्गीम् विध
 २४, १४; ६२, १७.
 हीनाङ्गा(ङ-ङ्ग)ङ्गा(ङ-अं)ति-
 रिक्त- -क्तम् अप १, ३२, ५.
 हीनाङ्गा (ङ-अ)धिकङ्गा-
 -ङ्गाः विध ८१, १५.
 हीना(न-आ)चार^२-> च-
 परीठा(त-आ)वम्^३- -मा
 वाप ६, १.
 हीना(न-आ)चार^१- -रम् वाप
 ६, २.
 हीना(न-अ)तिरिक्ता (ङ-अ)
 ङ- -ङ्गम् अप ३, २, ३; -ङ्गाः
 वीथ २०२.
 हीना(न-अ)धिक(क-अ)ङ्ग-
 -ङ्गम् अप ३, २, ४; -ङ्गात्

अ) पाठे. पु २७८७ ड द. । b) पाठे. पु २७८७ ड द. । c) पाठे. हासीत् इति शोधः (ह. हाथी १, ७, ५
 ता ६, ४, ८) । d) महासिद्ध इति जीव १ । e) ह. पाका. । ही^१ इति पाठे. । f) हल्वा इति संस्कृतः टि. ।
 ह) महोन. इति पाठः । ग) मणि. शोधः (ह. आपथी २२, १४, १८) । पु ४०१ सख. महीनः इति नेष्टम् । h) मही^०
 इति पाठः । ग) मणि. शोधः (ह. आपथी २२, २०, १) । र) वस. । j) पाठे. पु १४४१ j द. । k) डव.
 = १६७- । l) हत. > वत. । m) कत. । n) वृत्. > वत. ।

विष ७१,२; ८२,१, -ते क्षय ३,
२,५.
हीना(न-अ)धिका(क-अ)हुलि-
-लि अय ६९,२,१.
हीना(न आ)मुनावा^० - न
आपथी २२, ४,३; द्विथी १७,
२,५
हीयमान- >^० न पाप-योग-
-माय पा ५,४,४७.
हेय- -यम् वेज्जो १२, -वी वाप
१३,५०, गीष २१,१२
हेय-पात्र-आदिन्- -ही वैष ३,
१५,११.
√हा^० पावा जुहो. आत्म. गतौ.
हाः ह- द्र
हाह^० √कृ > हाह-कार- > -
स्वात्^० - > १२ पदानुसार-
राणि राश्री ६,१,६
हाहकारा(र-अ)न्त^० - -त लाथी
६,१२,१२.
हाठ^० √कृ > हाठ-कार- - न लाथी
६ १०,९.
हात्वा √हा (त्यागे) द्र
हादेश- ह- द.
हान्त-, हानि- √हा(त्य मे) द्र
हान्तस्थ ह- द्र
हान्त्र- √हृ द्र
हायन्^० - पा ३, १, १४८, -न पावा
४, १, २७, -नस्य पावा ४ १,
२७^०, -ना आश्रित्य ३, ६, ४
१६^०, १७^०, द्विपि १०: १५,
-नामात् राश्री १५,४,१०^०.
हायना(न-अ)न्त^० पा ५, १,

१३०.
हार-, रविष्वा √हृ द्र
हारा^० - पाग ३,१,१०४.
हारायण^० -यम् द्राश्री ८, २, २,
लाश्री ४,६,२, ७,३,१.
हारि- √हृ द्र
हारिक- हरि- द.
हारिग्रीव- -वा वीथीप्र २३: २
हारिग्रीवि- धयः वीथीप्र ४२: ४.
हारिण- हरिण- द्र
१ हारित- १हरित- द्र
२हारित- २हरित- द्र.
हारितयत्री- हरितयत्र- द्र
हारितायन- २हरित- द्र.
हारिद्र- हरिद्र- द्र
१हारिद्रव^० - -वेपु आपथी ४,१५,१,
माथी ४,२१,१, द्विथी ६, ४,
१८, अथा ३,२,१.
हारिद्रविक-, -विन्-, -धीपा- हरिद्र-
द्र
हारिन्- √हृ द्र
हारियोजन-, -वर्ण- प्रम् हरि- द्र
हारीत- २हरित- द्र
हार्य- √हृ द्र.
हार्य-, -धि- हृद- द्र.
हार्यिक्य- हरिक- द्र
१हार्यिक्य^० - -यानम् वीथी ९८
२०,१० १७, २०, द्राश्री १४,
३,५
हार्य- हृद- द्र
हार्यन्- -दानम् राश्री ८, १५,
११^०.
१ हार्य- हर्म्य- द्र

हार्य- √हृ द्र.
हार्यश्व-, -धि-, हायोजन- हरि-
द्र.
हार्येय- २हरि- द्र.
१-रहाल- प्रम्, शालिक- √हृत्
द्र
हालु- पाठ १,१
हालेय- २हरि- द्र
हावक-, -वन-, हावयिष्वा, -धिं-
धिक-, -विण- प्रम् √हृ
(शान्ता) द्र.
√हास्^० > हासमान(न>)ना- -ने
निप ४, २, या ५, ३,९, ३१, ११^०
हास- √हृत् द्र.
१हासन- -नम् वा ७०^०, ७,१.
हासत्- पाठ ४ २२१
हास्तायन- ७हरत- द्र.
हास्तिक-, -कथुंका- प्रम्. ५हस्त-
द्र.
हास्तिकासि^० - -वि- वीथीप्र २४ :
१.
१हास्तिन- ५हस्त- द्र.
२हास्तिन-, -नायन- २हस्तित- द्र.
१,२हास्तित- ५हरत- द्र
१,२हास्य √हृत् द्र
हाहा पा १,४,५७.
हाहा-कृत्- -नम् अय ६४,२,१.
हाहा-भूत्- -नम् अय ५५,४,१
हाहा-होही अय ३६,९,१४^०
हाहा^० -> हाहा-हृद- -हृ अय ५२,
१०, ५, -हृयाम् वीथी ५६,
१३.
हाहौ^० पाग १,४,५७

a) वम । b) या ८, १५ पा ७, ४, ७९ पराम्भ. द । c) स्तोत्रि < हृ (द्र पा ८, २, १०७) ।
d) = वाम-विशेष । e) वस । f) स्तोत्रि < हौ । g) वैष १ द । h) वृ. पाणि ।
i) पाणे वृ २४५१ म द । j) = एक-शालि । k) मुक्ताश्ल-माला- इति पाणम. । l) वैष १
निर्दिष्टयो समावेश द । m) = हाहृद- (वैष १ द) । n) पाणे वैष १ हाहृदम् इति द. । o) या
९, ३१ पराम्भ द । p) अय. । q) = वाम-विशेष । r) वृ मन्त्र. ।

✓हि^१ वापा स्ता पर गती इडो च,
 द्विनोति अत्र ४८, १६१,
 पृथिव्यन्त आपथी १८, १५ ३०,
 शिपी २३, ६, २२०, २६, ४,
 १२०, श्रम २, १, ६५, साअ २
 २५४, या १, २०, शैति २४६
 द्विनोति वीष १, ६, ३१,
 पृथिव्यन्त आथी ४, १३, ७,
 आथी ६ ४, १, आपथी २१, ९,
 ११०, वीथी १६, ६ ११०,
 वीथ ३, ४, ५ पृथिव्य आथी
 ४, १२, २, आथी २, २७, २,
 आथ २, १, ५ ७, या ११,
 ३०४, पृथिव्योत > या आथी
 ५, १, ८, निष ४, ३, या ६,
 २०४, ७, २०, १२, ५४,
 श्रम ७, ३३, अदि-यन्त आपथ
 २, ११, २३०
 पृथिव्यन्त-न आथी ८, १, ८,
 आथी १०, ५, ८, श्रम ३, १० -
 ३५, श्रम २, ९, १०, श्रम १,
 ५३६, -नम् द्विथी १५ ७, १५
 द्विथान-नम् श्रम ४, १, ८
 पृथिव्य आथी २ ६, १८, आथी २,
 २, ६, आथी १०, ८, १७,
 आपथी, आथि ३, ८, २
 ३५, वीथि १, १५ ४३, या
 ८ १, २४४, पथ १ ४, ५७८,
 पाया १, १, १, १२ x x
 पृथिव्य-ने श्रम ३ ६७, ६, १५,
 या ८, २, १३
 द्विथान-न तैमा ४, ३७

द्विथि^१- द्विथ वीष १, २, १७।
 पृथिव्य, द्विथ, द्विथ वीथी ७, ७ १,
 आथी २, १३, १४, आथी, पाथ
 १, ४, ५७८, पृथिव्य आथी १,
 २, ३, २, २, १६
 द्विथुज- युक् श्रम ३, ३, १०
 द्विथुज, द्विथुजोति वीथ ६२, २११,
 द्विथुजोत्त वा ११, ४२१४,
 द्विथुजोति आथी १, २, ५, आथी
 २, ४, ४, १, ५, १, १६, वैथी,
 द्विथुजोति वैथी १६ २, १८ १३,
 निम् २, ७ ८, द्विथुज पृथिव्य
 १२, १७, १३, २८, ६, १३,
 ३, १, ११, १, आथी, द्विथुजोत्त
 वीथी २४ १७, १, वैथी २,
 ३ १, द्विथुज आथी ४, १, ५,
 ७, १, २७, आथी २, १, ४, ३, १,
 २६
 पृथिव्य-न आथी १२,
 १७, ७, वीथी ७ ८ ९, ८, २:
 १६ x x, वैथी
 द्विथुज-न आथी ४, ११:
 २, वैथीका १२०, आथी, -नम्
 आथी १३, १५, ८, वैथी १६
 १८ १४, आथी २, ४, ११, ५,
 २, १७ x x, आथी, -न निम्
 २ ७ ४, -नम् आथी ३, ४,
 ४, वैथी १५ ११ ४, आथी ३,
 ४, ३४, आथी, -नम् आथी
 २०, ३, ३, आथी ३, ४, १, ३३,
 श्रम ३, ६, -ने आथी ५, १०,
 २, वैथी ५ १० २५, २१, ३

३२, -नेण आपथी १७, १०, ११,
 २४, ११, ५, वीथी ३, १० २५,
 २४, १५: १०, वैथी १९, ६:
 १४१, आथी २, ६, १०, आपथ
 २, १२, ११, पाथ, आथि २, १,
 ५ ३६१, वीथ २, १, ५१, पाथ
 १, २७ १६१, पाथ ३ ११, पाथ
 २, ८, २२१, जैथ १, ८ १२१.
 द्विथुज-नम् -नम्
 द्वे ८, १२३
 द्विथुज वेला-नम्
 आथी १०, २, १४, आथी ३,
 १०, १८
 द्विथुज-नम् (त>) त- -न
 जैथीका १२२
 द्विथुज (र-का) दि- -दि
 आथी ६, ११, ९
 द्विथुज (र-का) नम् - नम्
 जैथीका १८०
 पृथिव्य (त>) त- तो आथी
 ५, १०, २, या ११, ४५, अथ
 १२, ५, ३, शैति ६२
 द्विथुज, त- -नम् जैथी ९
 २३, -ता आथी ३, ४, २३,
 आथी १, १२, ९, -तानि जैथी
 ११ १३, -ते जैथीका १०४
 द्विथुज- तानि जैथीका २०७,
 -नम् जैथीका १६१
 द्विथुज (ति अ) नम्-सर्पना
 (ए आ) दि- -दि जैथीका
 १८५
 द्विथुज आथी १, २, ३ आथी

a) या ४, २७ अथ ३, १७ वीथ ३, ८८, ४ १५ या ७, १, ५६, ८, ४, १५ पराश्रम ६ । b) पामे
 वैप १, २५१० ० द्र । c) पामे वैप ३ द्विथुज श्र १, २३, १७ टि द्र । d) पामे वैप १, १२३६ मा द्र ।
 e) वैप १ द्र । f) पामे वैप १ यु अ १०, १०, १२ टि द्र । g) द्र पामे । h) अल । i) द्विथुज श्रम ७-
 न्पानवच । j) निम् इति नैम् (द्र अर्कट्टि टि) । k) वैप १, ७५३ १ द्र । l) सपा १२५ <> ० रेण
 इति पामे । m) पामे वैप १, ७५३ मा द्र । n) पाम वैप २, ३४ द्विथुज मभा १, ५, १६ टि द्र ।
 o) एव ही इति पाठ ३ मनि वीथ (द्र सपा शी १२, ७, १०) । p) अथ > अथ > अथ ।

✓हिंस^a पाषा. कषा. पर., घुरा.
 उग. हिंसायाम्, दिनस्ति वीथी
 १६, २७ : १४; १७, ४६ : २३;
 बाधुथी; हिंसन्ति वीथी १७,
 १८ : १२; अण देदे, ७, ५;
 आपध २, २४, ९; हिष २, ५,
 १७४; हिनसात् आपथी २४,
 १४, १२५; हिनसात्, हिनसात्
 आपमं २, १७, १३५; हिंसात्
 काथी ४, १२, २३; वाधुथी;
 हिंस्युः माथी ५, १२, ९; माथी
 १, ५, १४; वाधुथी ४, ४० : ८.
 ऋहिंसिम् माथी २, ७, ११;
 आपथी ४, ५, ५^१; वीथी;
 ऋहिंसोत् माथी १, १२, ३७^०;
 काथी १७, ३, ११; आपथी १६,
 २०, ५; १८, १८, ७^०; वीथी;
 पाठ ३, १५, २१; आणिष्ट २, १,
 ४ : १५^०; हिण् १, १७, ४;
 १८, ५^०; २, ४, २^१; ऋहिंसिपुः
 वीथी २७, ६ : १६; १९; वैथी,
 ऋहिंसीः काथी १, १२, ३५^१; १३,
 १; ३, ६, २४; १४, १३; ४, ७,
 ४^०; काथी १, ५, १६; ४, २०,
 १^०; ६, १२, ३^०; ८, १२, ११;
 १७, १३, १०^०; काथी; आपथी
 २, ५, ७^०; ३, १३, ५^०; १९, ३,
 ४^१; माथी २, ८, ८^०; ३, १२, ३^०;
 माथी १, ३, ५, २६^०; ८, १, ११^१;
 ४, ४^०; ५^०; हिथी २, ६,
 ३०^०; प्राथी २, ३, १०^०; ३,

१, ३^०; १४, ३, ७^०; लाथी १,
 ७, १५^०; ९, ३^०; ३, १२, १३^०;
 ५, ७, ६^०; ९, ७, १६^०; वैताथी
 ३, ११; गांष्ट ६, ४, १^१;
 ऋहिंसिष्टम् काथी १, ६, ११;
 वीथी ७, ५ : २१; वैथी २१, ५ :
 ९; काठ; ऋहिंसिष्ट आथी ५, ३,
 १५; काथी ६, १३, १; काथीरं;
 ऋहिंसिपम् आपथी २, १८, ९;
 वीथी १, ५ : ४; १३; ११ : ७;
 १२; १७; १६ : १३×४; माथी.
 ३हिंसक- पा ३, २, १४६.
 हिंसत्- सत् विध ५१, ६५; वा
 १, १५.
 हिंसा- सा विध ३७, २४; ३२,
 १; ५१, ६७; -साम् वाप ४,
 ७; विध ५१, ६६; ७१; गौण
 २, २३; वा १४, ८; ९;
 -सायाम् अण ४८, १९; ६१;
 लण ११३; विध.
 हिंसा-नमेत्^m - गां वा १, ८;
 ४, १७; २५.
 हिंसा (सा-आ) कोश- -सयोः
 वाप १२, ९.
 हिंसा (सा-अ) जुमत्- -इयो.
 गौण ३, २५.
 हिंसानुप्रह-परिहार- -रेण
 वाप १०, २९.
 हिंसानुप्रह-योग- -नेपु गौण
 २८, ५३.
 हिंसा(सा-अ)र्धे- -अंश् अण १,

३२, ११; आपध २, २९, ७;
 हिष १, ७, ६३; -यांनम् पा
 ३, ४, ४८; -अंत आपध १, १६,
 १६; हिष १, ५, १५; -अंम्यः
 पाषा ३, ४, ३७.
 हिंसा-संयोग- -ने गौण ७, १३.
 ऋहिंसित- -सः काथी १, १२, ३७^०;
 निस् ३, १ : १३; १२, २.
 हिंसितोः वाधुथी ३, ५ : ४.
 हिंसीर- पाठ ५, १८.
 हिंस्य- -स्याः कौष्ट ३, १०, ३५;
 गांष्ट २, १६, २; विध ५१,
 ६४.
 हिंस- पा ३, २, १६७; -अः विध
 २३, ८; -साः विध ४४,
 १०.
 ३हिंसक- ✓हिंसि द.
 २हिंसक- (> हिंसकावन- पा.)
 पाण ४, २, ८०.
 हिक्त्^m निच ३, १२५^०; पाण १, ४,
 ५७^०.
 ✓हिक्^m पाषा. अभा. उग. अण्यत्ते
 कथ्ये.
 हिक्, हिं-कथं- प्रह. हि द.
 हिंसु^m- पाठभो २, १, ४७.
 ✓हिद्र पाषा. अभा. पर. आकोशे.
 ✓हिद्र ✓हिद्र टि. द.
 हिडिड्य- पाठभो २, २, २२२.
 ✓हिण्ड पाषा. अभा. आम.
 कथ्यमादरयोः.
 हिण्डीर- पाठ ४, ३०.

a) वा ३, १८ पा ६, १, १८८ परामृष्टः द. । b) पामे. वेप २ हासीय कठ ३५, १८ टि. द. ।
 c) सङ्घ पामे. वेप १ हिंसोक् तै १, ८, १६, १ टि. द. । d) षीः इति पाठाः इति. कोषः (व. सभा. हिण् २, ४, २) ।
 e) पाठाः हिंसीः इति शोषः (व. Bōht [2033 ५२, ८५]) । f) हा. आपमं २, १३, १ कथीय इति पामे. ।
 g) पामे. वेप १ हिंसोक् तै १, ८, १५, २ टि. द. । h) पामे. वेप १, २५०० h द. । i) पामे. वेप १ हिंसीः मा
 १२७ टि. द. । j) पामे. वेप १, २६१८ l द. । k) पामे. वेप १ हिंसीः मे १, २, १६ टि. द. । l) पामे. वेप १
 हासीः तै ३, १, १, २ टि. द. । m) पामे. । n) पामे. वेप १, १७८७ o द. । o) वेप १, १०९२ l द. ।
 p) व. पाषा. । विक्र इति भाषण. पारि. । q) वृ ८७५ पृ द. । r) = एतन् (इति इति नभा.) ।

हित ता^३- पाठो २,१,१३१, -^१त
 धाप्रथो ३, ११, २^०, वीथी १
 २१ १०^०, माथी २, ४, १,
 ३३^०, निर १, १ ६, आपम,
 आगिष्ट १, १, २: ७^०, ५, ४
 १२^०, वा ११, ३६९, -तम्
^१आप्रथी १, १३, ४, १७, १८,
 १, माथी, आष्ट १, १३, ७^०,
 -ता वप्र १, ७, १४, अष
 ६९, १, ४, या ३, ४, -ता
 धापम १, ३, ४^०, वा ५, १२^१,
 शैशि २७२, -गात् पा ७, ४,
 ७५ -गात् अष २६, ५, ३,
 -^१जम् माथी १, २, ४, ४,
 वाथी १, १, २, १९, -वाष अष
 ५२, १, २, ६६, ३, ३, -ते
 वाप्रथी ३, १२ ६, आगिष्ट,
 -^१तेन आपम २, १८, ४७,
 वा १०, १५^०
 ✓हितकाम्य > हितकाम्या-
 -न्यवा विष १, ११, ४^०, वाशि
 २, १८
 हित-कारिन्- -ती आपष १ २,
 २०, हिष १, १, ५३
 हित नामन्^३-> हितधाम-, 'सन्'^३-
 वावा ६, ४, १००
 हित प्रेषु- म्बु विष ५१ ६९
 हित वीग- ने वावा २, ३, १३
 हिन समन्- लम् वा २, १०
 १हिवा(त प्र)थे- -थम् अष ३१,
 १०, ५
 २हिवा(त प्र)थे- -थम् अष २३,

१४, ३
 हिताभिन्- रिना श्वे ७, १९
 हित(>)ता वर^३- पात्र अत्र ९,
 १०^०
 हितै(त ए)वि(र>)मी- जी अष
 ७, १, १०
 हिन्वा ✓हा(ल)वागे द
 १^१रहिन्^३ आपथी १७, १, १, वीथी
 १२, ६ ३
 १^१रहिन्^३-> ७-वेप- न्यम् अत्र ६,
 १६
 गिनुक् पाग १, ४, ५७
 १^१हिनुहिभूत- -त नाशि १, ७, ५
 हिन्ताल- पाठो २, ३, १०५
 ✓हिन्- पाषा भ्वा पर. प्रंछने,
 १^१हिन्व काथी २, १३, ४,
 आपथी १२ २४, १३, वीथी.
 हिन्वात- ✓दि द
 १^१हिन्विषेनामन्^१ माथी ५, २, १४,
 ३
 हिम् हि द
 १^१हिम्^३- पाठ १, १४७, पाग २, ४,
 ३१, ७, ३, ८६, -म. वीथी २,
 ५ ७^१, -मम् वा ७, २७^०,
 -^१मस्य आपथी १० ६, ३^१,
 राथी १६, ५, १^१, वीथी, -मेन
 अष ११६ ८३, श्वे २ ११०^१,
 या ६, ३६^१^०,
 हिमाथी- वा, वावा ७, १, ५९
 हिम पात-> पा(त प्र)मिलो (ल
 व)पात- -ता अष ६७, ८, ९
 हिम बिन्दु- -नुभि श्वे ३, ९

हिम वक्^३क- वा ७, २, ८६, पाग
 ५, ४, १०७, -^१वतः आपथी
 १३, ११, ३, वीथी १७, ४२:
 ५, दिथी १०, ६, ९, आपम २,
 ८, ११, आगिष्ट, वाष १, ८९^१^०,
 अष ७९^१^०, श्वे ५, ७५^१,
 अत्र ६, २४, -वशि अष ७०^१, १,
 १, रीष्ट १, ५, १८, -^१वन्त^३
 राष्ट १, ९, ६, -वन्तम् पाष्ट ३,
 ४, ८, अष ११६ ९^१, वीथ १,
 १, २५^१^०, -वात् वीथ ३, ३,
 १९, वा ७, २७
 हिमवत- वा ७, ४, ११२,
 -त गाष्ट २, १४, २९^१^०, -तस्य
 माथी ३, ६, ४, -तावि वीथी
 १७, २९ १८
 हिमवती^३- ती अषा
 २०, ३
 हिमजन्त(<र)त-सकाश-
 -वात् विष १, ३५
 हिम-शब्द- -वद श्वे २, ११०.
 हिमा(म-अ)शु-> शु मौलि-
 ण्यो र्ना-विभाशित-समुद्र-
 ज(ल>)ला^३प- -लाम् अष २७,
 ५, ५
 हिमा(म अ)कलो(ल-उ)द्रव^३-
 -वात् विष १३, ३.
 हिमा(म था)तप- -वाभ्याम् आपष
 ७ २५, ११, हिष २, ५, १९०
 हिमा(म प्रा)तप वर्ष-सह- हम्
 अष ३ १, १३
 हिमा(म-प्रा)लया^३- -वे अष १९७

a) वैप १ द । b) पागे वैप १, ११५६१ द । c) पागे वैप १ वृत्त तै २, ४, ५, १ टि द । d) पागे
 वैप २, ३२२ हितम् अत्र १, ५, १० टि द । e) पागे, वैप १ हिताम् वाठ ३१ १४ टि द । सस्य युद्धहिताम् हति
 निर्वेको केष्ट । f) क्व लप वनेरि प्र । g) वष । h) कम । i) शोध वैप १ द । j) = 1 उप
 चारत्] जाठय- । k) विर, नाप । l) = हिमापल- (पर्वत) । m) सप्र 'वत <> 'वन्तम् इति
 पागे । n) पागे वैप १, १२२३ ४ द । o) = विनायक-विशेष- । p) वष > पश > तुष > बष ।

हिमेलु- पावा ५,२,१२२
 हिमो(म-हो)व-पटल- खानि
 अण ६८,१,११
 हिम-> हिमि^१- मा^२ अण ४८,
 ७४, निप १,७, -मा आश्री १,
 १२, ३६^०, शाश्री २, ११, ३,
 ४, १२, १०, काश्री, माश्री ३, १,
 २७^०, अथाय ४, १^०
 हिम पात- प्रम १ हिम- द्र
 हिमिनी^३- श्रीम् आपश्री २१, २०,
 १, २, हिश्री १६, ६, ४०^०
 हियङ्गु^४-> हियङ्गवीन- नम पा
 ५, २, २३
 हियङ्गवा(गु आ)देन- न पावा
 ५, २, २३
 हियान- हि द
 हिरण्य^५- पाठ ५, ४४, वा ५ २, ६५,
 पाग २, ४, ३१^०, ४, २, ८०^०,
 ११६, ५, २, १३५, ६ ३, ११८^०,
 पावाग ५ २, १०९^०, -ण्यम्
 आश्री २, ३, १०, ४, ६, काश्री,
 आपश्री १९ ३, ७, बाश्री ३, २ ७,
 ७८^०, निप १, २, ५, या २, १०^०,
 -ण्यस्य शाश्री १४, ३२, १०,
 वीश्री १७ ४१ १५, लाश्री ८,
 ७, १, आपम, -ण्यत् आपश्री
 २, ७, २, ६९ २४, ७, वीश्री,
 -ण्यानम् अण ४, १०, -ण्यानि
 शाश्री १६ ३, २६^०, वीश्री,
 -ण्ये आश्री ३ १२, १६, १४,
 २३^०, काश्री २५, ३, १७, आपश्री,
 -ण्येन काश्री ७, ८ ११, आपश्री

१०, २५, ११, २६, ३४४, वीश्री,
 -ण्ये आपश्री २१, २०, ३,
 हिश्री १६, ६, ४१, वीम् १०६ ७
 हिरण्य^६- ण्यम् अण १, ३५,
 १९, २६, -ण्ये आपश्री २०, ६,
 १, -ण्ये. अण ३, २, २३^०.
 हिरण्यिका- ण्की- पा ४, २, ११६
 हिरण्य-मय^७- वा ६ ४, १७४, -य
 आपश्री १६, १३, १०, २३, १४,
 १६^०, वीश्री, आपिण २, ४, १
 १६^०, हिण १, २, ७, ४^०, -यम्
 आपश्री १०, ७, १३^० x x, वीश्री,
 -यस्य पावा ६, ४, १७४, -मा
 वीश्री १८, ३८ ४, -यानि काश्री
 १५, ८, ६, वीश्री २२, २ २२,
 -ये आश्री १०, ६, ११, वीश्री
 १२ १५ २४, २५, हिश्री, -येन
 काश्री १६, १७, १, काश्री, -येसु
 काश्री २०, २, १८, वेताश्री ३६,
 २२, -ये अण ११, २, ५, -वी
 शाश्री १६, १८, ८, काश्री १५ ८,
 २३, -२यो आश्री १५ ६, ४^०
 हिरण्यमयी- वी लाश्री ८, १०,
 ४, -वीमि हिश्री १४, ४, १६^०,
 -वीम् काश्री १५, ८, २३, १६,
 २, ६, काण्ड ४५, १०^०, -य्य
 आपश्री ८, ५, २६, माश्री ८, ५,
 ६, वीश्री ८, १० ३, हिश्री ५,
 २, २०, -य्य वीण्ड १, २०, ६
 हिरण्य-क- पा ५, २, ६५
 हिरण्य-कश्य^८- न्दानाम् आश्री
 २, १ १४, -ण्यवान् आपश्री

१६, ६, ४, हिश्री ११, १, ६९
 हिरण्य-कलदा- वी अण १३, २, ५
 हिरण्य-कशिपु^९- सु आपश्री १८,
 ११, १४^०, २०, १७, ८, -सुनि
 वाश्री ३, ३, ३, ३, लाश्री ९,
 १, ११, २३, -सुम् हिश्री १३,
 ६, ३८^०, -वो हिश्री १४, २,
 ११, -पी आश्री ९ ३, १, १०,
 १०, ६, १०, आश्री, -वो
 आपश्री २०, ६, ८
 हिरण्य-काम- म कौम् २४, ३९
 हिरण्य कार^{१०}- रान् अण १ ६, १
 ण् हिरण्य कुशि, क्षी^{११}- क्षि. वीश्री
 २८ ७ ५ -क्षीम् कौम् २०२ २
 हिरण्य-कूर्च- ण्यो आपश्री १८,
 १९, १२, हिश्री १३, ६, ३७,
 -वै वाश्री ३, ३, ३, ३२, ३३,
 -वो आपश्री १८, १९, १४,
 हिश्री १३, ६, ३८
 हिरण्य-कृष्णल- खानि आपश्री
 १२, २१, २, हिश्री २२, ४, २
 हिरण्य केश^{१२}- ण्शानि १, ५२^०,
 -ण्यं आपश्री २, १३, ७, ४,
 १३, ७, आपश्री, -ण्यवान्
 माश्री ६, १, ३, २६, वाश्री २ १,
 २, ३, -वाव वीण्ड ३, १, ६^०
 हिरण्यकेशो- वी वय् २
 १६^०, -श्वै काण्ड ५४, ५, निप
 ६७, ९
 हिरण्य-कश^{१३}-> ण्शानि^{१४}-
 ण्शानिम् आपिण २, ६, ३ ४०,
 वीच २ ५, २७

- a) वैप १ द । b) = रादि । c) १९०० d १ । d) = गाय विवेच । e) < हाव, गो- ।
 f) = धन इति पागम । g) अर्थ १ । h) हु पागम । i) हु सप्त आपश्री १९, ३, ७ । j) सारयदेनाद्यर्थे
 अण प्र । k) पानि वैप १, १५५१ ४ द । l) वानि < ण्यवो इति । m) पामे ४ २७८२ b द ।
 n) सवा शी १२, २ ४८ एताम् इति पामे । o) वय । p) पामे वैप १ हिरण्यकेशान् काठ ३२, १२
 टि द । q) कण । r) ण्शानिम् इति मुखे । s) परस्पर पामे । t) = विष्णु । u) -वप ।
 v) = लज्जुर्वेदीय शाखा विषय ।

हिरण्य-कोश- -सम् काष्ठ ७१,
 १३१
 १ हिरण्य-लादि^०- इय शाश्री ३,
 ५, ११, ८, १३, १
 २ हिरण्य-गर्भ- > ० मि (र >) जी-
 मी वैश्व ३, १६ ७१
 ३ हिरण्य-गर्भ^०- -१ मं आश्री २,
 १०, १५ ३, ८, १, शाश्री, ऋष
 २, १०, १२१^०, वृक्षे २, ४०^०,
 सुख^० २, १२९, १४२^०, ३, १८,
 ४०, ४१, ८३, -भैरव आश्री
 २, ४, ६ १३, ५, ६ ६,
 ७१, -भैरव अश १३, ३, १३,
 -१ मं आश्री २८, १० १२,
 अश १३, २, १, ३, १२, -भैरव
 वाश्री २५^०
 ४ हिरण्य-गर्भ-त्व- त्वम् अश १३,
 २८
 ५ हिरण्य-गर्भ-विधि^०- विद् अश
 १३, १, १
 ६ हिरण्य-गर्भ-सूत्र- सत्र अश
 १३, २, ६
 ७ हिरण्य-गर्भा (भै-अ) दुग्धोत्-
 -स अश १३ ३, १४^०
 ८ हिरण्य-घन^०- १ कान् या ५ ४,
 अश ४ ७३
 ९ हिरण्य-पितृ^०- पितृ आश्री
 १६ १८, ६, वैश्री १८, १५ १८,
 दिश्री १६, ६, ३०
 १० हिरण्य-सुप्त^०- स्यात् शाश्री ८, ११,
 २५
 ११ हिरण्य-मन्त्र^०- मन्त्र आश्री ३, ८,

११
 १२ हिरण्य-दक्षि (रा >) ल^०- ण
 काश्री १५, ९, ५, वीश्री १८,
 ३८ १.
 १३ हिरण्य-दा- -दा आश्री १६,
 ३३, ४१.
 १४ हिरण्य-दान- -नस्व अश १३, ५
 ३१
 १५ हिरण्य-नाभ^०- -भ. शाश्री १६, ९,
 १३१^०
 १६ हिरण्य-नामन्- -मानि निच १, ३,
 या २, १०, -स अश १३, ३,
 ११
 १७ हिरण्य-निकाप- -यम् आश्री १,
 १५, १
 १८ हिरण्य-पक्ष, क्षा^०- क्ष हिर १,
 १०, ३^०, -क्षा आश्री ४, ७,
 २, भाश्री ४, १०, १, दिश्री ६,
 २, १०
 १९ हिरण्य-पति- -ति अश ६, ४, ५
 २० हिरण्य-परिमाण- -णम् पा ६, २,
 ५५, -णे काश्री २०, १, २३
 २१ हिरण्य-पर्ण^०- -०णं पाठ ३ १५
 १९^०, या ८, १९^०, -०णं पाठ
 १, ४, १५^०, सुश्री ४, ८५
 २२ हिरण्य-पयमान^०- -नाभ्याम् वैश्व
 २, १३ १५
 २३ हिरण्य-पालि^०- -णय वैश्री १२,
 २३ ६, -लि १ शाश्री ४, ६,
 ३, १ शाश्री ५, ९, ७, ८, १८, १४,
 आश्री, वैश्री १५ ९, ३, ११,
 १२, वैशाश्री १३, ७, -१ मिम्

आश्री ८, १०, २, शाश्री ३,
 १३, १२, ४, वीश्री, -ने^० चाश्व
 २ ९
 २४ हिरण्य-पात्र- -त्रम् आश्री १७,
 २३, ५, वीश्री १०, ५० :
 १३, ४, वैश्री
 २५ हिरण्य-पुरुष- -यम् काश्री १७,
 ४, ३, वैशाश्री २८, ३४, -वे
 जेश्री ३
 २६ हिरण्य-पु (ष >) ली^०- ल्या
 वैश्व ३, १४ : ६^०
 २७ हिरण्य-पुट- -वम् शाश्री ३, ६,
 १६
 २८ हिरण्य-पेसास्^०- -ससा अश १,
 ११, १०^०
 २९ हिरण्य-प्रदत्त^०- -गम् वैश्व १८^०
 ३० हिरण्य-प्रका (र >) रा^०- -रा कौश्व
 १०६, ७^०
 ३१ हिरण्य-प्राका (र >) रा^०- रा माश्व
 २, १३, ६^०
 ३२ हिरण्य-प्राकाश^०- -श्री आश्री ९, ४,
 १२, आश्री १८, २१ ६, दिश्री
 १३, ७, १५
 ३३ हिरण्य-प्राशन^०- -नम् वाश्व २२,
 ११, गौश्व १९, १४
 ३४ हिरण्य-फलक- -के वाश्री ३, ४, १,
 ३५, ३६.
 ३५ हिरण्य-वाहु^०- -१ हवे वैश्व २, ४,
 ६, सुश्व २, २६१, -हु वैश्वीय
 ४३ : ६^०, हिर १, १५, ७^०
 ३६ हिरण्य-मुञ्ज- -मुञ्ज अश १, २६,
 १, १७ १, १५, अश्री ९, १

a) वैश्व १३ द । b) अश । c) पूष = उपपचारत् । कर्म विशेष । d) उप = शतव-
 द्धि भाष्यम् । e) अश उप = २३ द्धिना- । f) वैश्व २, ३६ द । g) पाश्वे वैश्व २, ३६
 हिरण्यनाभुं टि द । h) वाश्व
 ३) वाश्व आश्व १, ३, ६ हिरण्यद्वस्त
 टि द । i) = शेषवि विशेष ।
 = प्रतीतिवन्त । j) अश । k) हिरि^० इति पाठ १ मनि शेष (व ०) । l) अश । o) उप

हिरण्य-मणि-मो-मृप तिल भूमि-
सर्विस- श्रीपि सुप ५३
हिरण्य मय- य वा १०, २३,
३३.
हिरण्य-माला-> णिन्- -रिन्.
आपथी १८, २, ११, हिधी
१३, १, १२.
हिरण्य मिध, धा- -धम् ऋ १, ६,
३, -धामि वंश ६५. २
हिरण्य मुल- -रम् वीथी ८, ६ :
७, ११, ६ ३१, १२, ७. ४. १.
हिरण्य-मू (पन् >) णिन्- -श्रीन्
वीथी १०, ३२ ५, माथी ६, १,
७, १५, वीथी १८, १७ ३५
हिरण्यम, पा- पा ६, ४, १७५,
-य आथी ३, ६, २४, आपथी
१७, १८, १, अय, -यम् शीथी
१२, १८, ५, आपथी ६, १,
४, ऋपा ७, ३२, -या आथी ७
७ ४, ७, ४, १२ x x, शीथी, वीथी
१८, ४६ १००, -या अय ५,
४, -यात् आपथी १६, ३३, ४,
-यानि काथी १६, १, ३२७
हिरण्ययी- यी वीथी १७,
१४ १३, आपम १, १२, ३,
वीथ १, ७, ४०, माथ
हिरण्य गदि- -दि आपथी ६,
७, १, हिधी ३ ७, ४१
हिरण्य-योनि- नि आपथी ५,
१०, १, १२ २, १३, ८, १५,
६, हिधी ३ ३, ३४
हिरण्य रजत मणि मुक्ता प्रवाला
(ल-भा)दि- दिमि अय १०,
१, ११

हिरण्य राजा(त-आ)दि- वीनाम्
अय ३९, १, ९
हिरण्य-नथ- धम् शीथी १५,
२२, ११.
हिरण्य-नथ- -या, या ११, १५
हिरण्य रूप- -य वीथ १, ६ १,
या ३, १६७, १०, १६, -वी
काथी १५, ५, २८, अय १, ६,
११
हिरण्य रेत- पाठ ७, २२७
हिरण्य-रोत- -म्नाम् १५
११६ : ६.
हिरण्य-२- पावा ५, २, १०९.
हिरण्य-वत् आथी ३, १२, १७,
मीथ १०, ३, ६७
हिरण्य-वत्- -वत् वीथी २५ ६,
६१, १२, १४, आपथी, -यत्
वीथी ६, १४ १, वीथ ६, २,
१२
हिरण्यवती- -तीनाम् वीथ १,
७. ७, -तीमि. वीथी १, ११
३२, वीथी १३, १४ ६, अय
१३, २, ४, -त्याम् काथी ११,
१३
हिरण्य वर्चस्- -वंसम् आपम २
७, २५, ८, २, माथ २, २१ ४,
१८, दिप १, १०, ६, ११, ३
हिरण्य वर्ण, णिन्- -०णं माथ २, ५
१३१, -१णं आपथी १६, ३३
४०, वीताथी १७, १, अय १२,
२४, या ३, १६, -१णं वीथी
३, ३, ४१, आपम १, ६, ४,
वाय, -१णं या ३ १६, -१णं
आमिथ १, १, ४ ३९, दिप,

अय ७६, ५, ३, -१णं आपथी
७, ६ १, १०, ६, ११ x x, वीथी,
निप १, १३६, -१णं माथ चाय
१५ ८, -१णं मिः आमिथ ३,
१०, २. १२, वीथ ३ ३, ५,
-१णं आपथी १८, १४, १६,
वीथी १२ १ २५
हिरण्यवर्ण-०णं- ०णं या ८,
११.
हिरण्यवर्ण- तैप्रा ११, ३
हिरण्य वर्तेनि- नी शीथी ७,
१०, १०
हिरण्य-वासो(सू-अ)वीनास-
सेयु काथी २०, ६, १०.
हिरण्य-शकल- -रम् आपथी ५,
१०, ३, ७, २०, १३, माथी,
-लत् शीथी ७, १४, १६,
काथी १७, ५, ७, १८, ३, ३,
२५, ७, २०, माथी, -लानि
वीथ ५, ३ २४, वय ३, २, ५,
कीम् ८०, ५६, -लेन माथ १,
१७, ४, कीम् १२७, १०, -सेयु
माथी ७, ४, १५, -लै वीथी
२, २ २, २३, -लौ आपथी ७,
२३ १२, २४ १ x x, माथी
हिरण्यशकल तिल तण्डुल-
-यानि वीथ ७ २ ९
हिरण्यशकल-सहस्र- सेण
काथी १७ १२, २६
हिरण्यशकल(ल ध)य- ०णं
काठ ७, २७
हिरण्य शकल- -रम् वीथी ८, ५
१, -रम् वीथी २ १६ ५०,
१७ ६, ४३, नाथी ७ ६६ २,

a) वस । b) वय १३ । c) वृ । d) न्ययानि इति वीस । e) पामि वय १
हिरण्यरूप दि ३ । f) पामि वय १ हिरण्यरूपम् ऋ ५, ६२, ८ टि ३ । g) = सोकाळीनय ल विशेष ।
वस । h) वस १ वृ आपम सूची वृत्त ३३३, दिप सूची वंसे- इति । i) पामि वय १ हिरण्यवर्णम्
३ १०, ८५, २० टि ३ । j) पामि वय १ हिरण्यवर्णा तै ५६, १, १ टि ३ । k) = नदी- । l) = श्व- ।

४, -रुकाः वापुध्री ४, १६ १५,
 -रुकां वापुध्री १६, २६, १३,
 वीध्री, -रुकेः वापुध्री १७,
 ११, १, हिध्री १२, ३, १, -रुके
 वापुध्री १६, ३२, ५, वीध्री.
 हिरण्यभारु प्रःयसन- नम्
 वापुध्री १६, २७, ६.
 †हिरण्य श्रद्ध- -द्र. श्रद्धा २, ४१,
 -नम् श्रद्धि २, ६, २: ५, वैधृ
 १, ३. ४, वीध २, ५, ३; वैध २,
 १३, २.
 हिरण्य धपण- -नम् वीध्री २५,
 १०. ९.
 हिरण्य संतर- -नम् वापुध्री १६,
 ३३, ४, वा ३, १६४; १०, १६
 हिरण्य श्रुति- -ति वृदे ८, ४५,
 शुभ ४, ३४, श्रम ५, १८
 हिरण्य-स्तूप- -य श्रम २, १, ३१,
 १, ४. ६१, शुभ, -ये निम् २,
 १३: २९.
 हिरण्यस्तूप- -य श्रम २,
 १०, १४१०, -ये वा १०, ३२
 हिरण्यस्तूपीन- -नम्
 वाध्री १०, १३, १४, १८, १९, २,
 -वाध्रवाध्री १०, १३, १५, श्रम
 १, १२, १४
 हिरण्यस्तूपना- -वाध्र वृदे ३,
 १०६
 हिरण्यस्तूप (प-आ) हिरण्य-
 -स शुभ ४, ७
 हिरण्य-लेन- -न शंष ४१४.
 हिरण्य स्थाठ- -रम् वाध्री २, २,
 ५, ३, ३, १, २, १०, शोध्री १५,

४, १७, वाध्री ८, ११, २४.
 †हिरण्य-स्रज्- -नम् श्रम ३, १,
 ४०, -स्रज. काध्री १४, १, २३,
 ५, ३६; गोय ३, ५, १६; -स्रजम्
 वापुध्री १८, २१, ६, २२, १०,
 १- हिध्री.
 हिरण्यस्रज्-नम् काध्री २२, ३,
 २४.
 †हिरण्य-स्रज्- -नम् काध्री
 १०६, ७, श्रम १०, १, -स्रजा
 वाध्री २, १, ४; वाध्री.
 हिरण्य-हस्त- -स्तः वैताध्री २१,
 २४; श्रम १, ३, ६.
 †हिरण्य (शय-शय) ध- -श्रम
 वीध्री २५. २^d, -श्रम वापुध्री
 १६, ६, ४, माध्री ६, १, २. २६,
 वाध्री २, १, २, १, हिध्री ११, १,
 ६९.
 हिरण्यवाहाण- -या वीध्री १
 ४६: ३.
 हिरण्य (प्य-न्या) वय-वैत- -नम्
 शुभ १, १६५
 हिरण्य (एव श्र) दर्शन- -नम् वाध्री
 १८, ३, ५
 हिरण्य (प्य-आ) दि- -दि वीध्री १२,
 १४. २, श्रम २, ३६.
 हिरण्य (प्य-म) म्निर्दि (त>) ता-
 -नामि कैय १, १९: ९
 हिरण्य (वय-श्र) न्यसन- -नम् हिध्री
 १७, २, १५
 हिरण्य (प्य-न्य) पदाहिर- -री शंष
 ३७६
 हिरण्य (एव-श्र) भिभूत-रस (ना>)

न- -न वीध्री १८, २३: ३, ४,
 -नम् वीध्री १८, २३: २
 हिरण्य (प्य-श्र) ध- -धे वीध १, १०,
 ३५
 हिरण्य (एव-श्र) ध- -धे वीध्री २१,
 १४: ४.
 †हिरण्य-न- वा ४, २, ८०.
 †हिरण्य (न >) नी- वा ५, २,
 १३५
 हिरण्ये (एव-श्र) एका- -का वीध्री
 २५, ३०: ४, -का वापुध्री
 १६, १३, १०x४, वीध्री,
 -कामिः वापुध्री १७, १०, २,
 वीध्री १२, ६ १८, -काम १६,
 ४, १, २३, ८, १७, १, १४, ४, ७,
 वीध्री, -काम् वीध्री १९
 हिरण्यो (प्य-न्य) दक- -कै शुभ ५
 ८८ ४
 हिरण्यपाप- -वा वीध्री ४१ १५
 हिरण्य-पुरुष- -प्रम हिरण्य- श्र.
 †हिरण्य^क धप ४८, १०७, १०९^१,
 निष ३, २५, वा २, ८, ४११
 १, १, ३७, ५, ४, १०७.
 ✓ हिल् पाप. तुदा. पर भावकरणे
 हिल्लुका^१ -काम^२ आश्री २१, २०,
 १, २
 हिल्लु ५ हिल्लु^१ वापुध्री २१, २०,
 ४, हिध्री १६, ६, ४१.
 ✓ हिल्^१
 रही^१ वेज्जो १८.
 रही^१ वा १, ४, ५७
 ✓ हीह, †हीहोड शीव ३, १४, ४, ८७.
 हीडित- -नेमि वीध्री ९, १७: १८^१.

a) वे १६. १. b) वत वा उत वा। उप. <✓श्री (पाके)। c) = हूल-विशेष-। d) व्यप ।
 e) का । f) वत । g) पापे वृ २७९४ i द्र । h) वृत्त > वृत्त । i) हूल-नाम- ।
 j) = नीलेन्द- । k) पापे वृ १८५६ ह्र द्र । l) = शब्दाश्रुति । m) पापे. वृ ५९३ i द्र । n) वृ ८७५
 वृ द्र । o) = नरुन- (जतराभाद्रपद-) । p) वृ पापम विरमेय, विवादे च शब्द । q) पापे. वे १
 ह्रीदिमि टि द्र ।

हीन- ✓हा (त्याने) द.
हीनकान- नाः वाधूथी ४, २६ :
११०.

हीयमान- ✓हा (त्यागे) द.
हीयमीवाः भाथी १, २२, २.

हीष् हम् १, ३ : १२.

हीपी°->हीपी-स्वर्- रम् लाथी
७, ८, ५.

✓हु पाथा. शु. पर. दानादावयोः,
उहोति भाथी १, १, १६; गाथी
१, २, २१; ६, ९, १६१; काथी
२, २, २१; आपथी १२, ७, १२१;
१९, ९, ५; काठथी; उहुतः
काथी ९, ११, १; आपथी ८,
५, २३; वीथी ५, ९ : ७; माथी;
उहुति आथी ५, ३, १२; काथी
९, ६, २८; आपथी; ऋथोमि
आथी २, २, ४; शथी २, ६, ७;
काथी; हिय २, ३, ९; ऋथुमः
वीथी १, २१ : २५; २, १० :
११; आपथी; उहुवन् वाधूथी ४,
९४ : ४; उहोतु वीथी १४,
१४ : १११; ऋथुहि काथी ५,
६, ३३; आपथी ८, ११, २०;
१, १६, १; वीथी, ऋथुत,
>ना काथी २३, ३, ११;
आपथी ८, २०, ५; वीथी;
ऋथोव, >ना आथी ६, १४,
१६; शथी ९, २८, ३; आपथी
९, २, ६३; २४, ११, १५; माथी

९, ३, ८; माथी ३, २, ८; हिथी
१५, १, ४५; शथि १, २२, ८;
हियि १८ : ४; अथा ४, ३; या
१०, २२४; ऋथा ७, ५५;
ऋथोवत आपथी १३, ३,
४; माथी ४, ५, ४; वीथी;
उहुतम >ना काथी ३, १८,
१५; उहुवानि गाथी १६,
१५, १; ऋथुवाम आपथी १७,
२२, १; हिथी १२, ६, २६;
मथुहोर् वीथी १४, १६ : १३;
वाधूथी ३, १९ : २०; २१ : १;
आथि २, ५, ५ : ९; अठ्ठव
शथि ३, २, २; उहुव काथी
२, ९, १६; कौथि ३, १, १;
मथुवतु वीथी २४, ३१ : ३;
वाधूथी ३, २१ : ४; हिथि २१ :
५; उहुव अप २७, १, २; उहु-
वात् आथी १, ११, १०; ३, १,
१३; ९, ७, १२; गाथी; हिथी
२३, १, ४०; नाथ १, १७, २९;
माप २, ७, १५; हिय २, २,
३४; उहुतुः आथी २, १८, ९;
८, १२, १४; शथी.
उहाव पावा ६, १, ८४; उहिरे
वा ४, १९४. उहुरे निष ४, ११;
होप्यति वीथी ११, २ : १३;
होप्यति गाथी ६, ६, २०; १;
होप्यामि ऋथुआपथी १२, ११,
७; २०, २२; वीथी; होप्यामः

वीथी १५, ७ : २१; वाधूथी
४, ४५ : १३; अहोपोर् वीथी
३, १४ : ३१; १०, ४९ : १०,
११, २ : १३; अहोपुः वीथी
१७, ४६ : ७; माथी ४, १८, ७;
हिथी ६, ३, १०.

ह्यते आपथी ६, ९, ११; वीथी
२, ७ : १३; २४, ४ : ४४४;
माथी; निष् २, ५ : ५; ७; हिय
२, ३, ४७; ह्यन्ते आथी ५, ६,
२३; आपथी १४, १९, ३; १८,
१२, १५; वीथी; अह्यत वाधूथी
३, ४० : ११; ह्येत वाधूथी ३,
२३ : ४; गोथ १, ९, १९; ह्येव
आपथी १९, ८, ८; १०, ४; १४,
६; वीथी २३, ८ : ३०; हिथी.
होप्यते वीथी २७, १२ : २३; १;
ऋथाधि काथी १९, ६, २१;
आपथी १९, ३, २; वीथी.
हानयेत् गोथ १, ३, १४; कप
३, ५, २; ४; कौथि ७३, ११.

हवर्वा ✓क, उहवर्वाकोति
गाथी १६, १५, १.
उहवर्वाकर गाथी १५, २३, १;
१६, १५, १; वीथी १८, ४१ :
१४; वाधूथी ४, ७५ : ३७; या
१०, २६.

उहुपेव गोथ १, ८, ३.
उहुपर- -पठा कप १, ८, १४.
उहोति- -अपः काथी १, २, ७४;

a) व्यप. । b) आः इति ईकंठता । c) = निषन-विशेषः । d) कप. । e) या ७, १५ : १०, २२ वा २, ३,
३; ३, १, ३९; ६, १, १९३; ४, ८७; १०१ वीथि ४, २, १०; २८ पराश्रयः द. । f) पति. आदयोः इति, आदाने केचके ।
पाम [२, ३, ३] प्रीत्ये अपीति । g) पाठः ऋथुति इति ईक. गोथः । h) सप्र. उहोति <> उहुवात् इति पामे. ।
३) पामे. ४ १३३९ प. द. । j) पामे. वैप २, ३९. तां २१, १०, ११ टि. द. । k) पामे. वैप २, ३९. उहुत देना
२, ५, ८, २ टि. द. । l) पामे. वैप १ विषे म वे ३, २, ११, ३ टि. द. । m) पामे. वैप १ विषे म काठ ३५, १९
टि. द. । n) पामे. <मथुहोर् । o) परस्परं पामे. । p) इति प्रपु (उहुवात् [अ. माप्य, गाथा २, ३ च] ।
q) उहोति इति क. । r) वै १ वि... उहुते टि. द. । s) ह्येव इति मू. । t) सप्र. आपथ २, १५, १३
क्रियते इति पामे. । u) आहुपेव इति मू. । v) = पाम- ।

५, १०, ५, कथ डे, ७, ३, ८, २, १,
 -विषु वत्र १, ८, १६, ३, ६, १६
 लुहोति चोदन- न आषथी
 २४, ३, ३, -नानाम् मीस् ८,
 ४, ४
 लुहोति दलिकमन्- मीणी,
 -मंगो वत्र २, ४, ६
 लुहोति मात्र- आ आथी ६,
 १०, २५
 लुहोति वजति-श्रिया- -या
 विष ५५, १८
 लुहोति शरद्- द्वात् काथी
 २४, ४, ३३, -न्दे हिथी ३, ८,
 २०
 लुहोत्प(ति-अ)विषोप- पात्
 काथी ६, १०, १७
 लुहत्- पाग ५ ४, ३८, -हत्
 काथी २, १२, ८, आपथी ११,
 १०, ४, १२, १४, १५^{१०}xx,
 काठायी, हिथी ८, ४, १७^{१०},
 -हत् वीथी १०, ५४, २०, १३,
 २३, ११, १५, २१ ५, माथी,
 -हत्तम् काथी ५, ४, १, आपथी
 ३, १७, १, १०, ८, ८, वाधुथी ३,
 १९ १४, २७ : १०, हिथी १३,
 ५, ३२, -हत्तम् वाध २६
 १४, -हत्तम् आपथी १४, १, ५,
 -हत्त वीथ ७१, ७, १०९, ५,
 ११०, ४, १११, ५ १२६, १, वाध
 ६, २८, -हत्तम् वेष्ट १, १ २०
 लोहत्- पा ५, ४, ३८
 लोहत्तम्- नम् वेताथी १४, १,

-नाः आथी २, १२, ५, शीथी
 २, ४, ४, ६, १०, २, वीथी २८,
 २ २९
 हविस्^{१०}- पाठ २, १०८, पा ५, १,
 ४, पाग, पावा ५, १, २, ३, -वि
 आथी १, ३, १४^{१०}xx, २, २,
 १०^{१०}xx, शीथी, काथी^{१०}६, ८,
 १^{१०}, ४^{१०}, आपथी ६, ५, ७^{१०}, १५,
 ११, १५^{१०}, माथी ६, १०, ५^{१०},
 म्माथी १, ६, १, १५^{१०}, ८, ५, १०^{१०},
 वाथी १, ५, २, १७^{१०}, हिथी ३,
 ७, २८^{१०}, भाय २, २, ५^{१०}, हिथ
 २, १७, २^{१०}, निष १, १२^{१०},
 -विर्म आथी २, १९, १६,
 ३, ७, ५^{१०}, वाथी ५, ५, १५xx,
 १५, १०, २२, आपथी, -विर्मः
 आपथी ३, १, ६, १४, ३२, ५^{१०},
 वीथी १५, ३४ : ४, वीथी,
 -विर्मः काथी ३, ३, २२,
 वाधुथी ३, १४ ५, -विष
 म्माथी १, ५, २९, १०, ८, २,
 १०, १७^{१०}, १३ १९, १०^{१०}, १६,
 ३५, ५^{१०}, माथी १, १०, १^{१०},
 हिथी ९, ५, १३^{१०}, ११, ८,
 २३^{१०}, वीथ १, १७, ६^{१०},
 आथिथ २, ५, ३ १२^{१०}, वीथ
 ३, ७, १२^{१०}, गोष्ट ३, २, ९^{१०},
 -विष ५ -विष वीथी १२,
 १९, ३, ४, हिथी १३, ७, १८,
 -विषा आथी १, ९, ५, १०, ८, २
 ५, १४^{१०}, १०, १६^{१०}xx, शीथी,

काथी २५, १०, २५^{१०}, आपथी
 ११४, १६, १^{१०}, २७, ७^{१०},
 हिथी ९, ४, ४०^{१०}, शार १, २५,
 ७^{१०}, -विषाम् आथी २, १७,
 १४xx, शीथी, -विषि काथी ३,
 १०, १०, १४, १, शीथी, शार
 १, ९, १३^{१०}, -विषि आथी १,
 ३, १२xx, आपथी, -विषे
 आपथी ९, १, २३, २४, ३४,
 ४, १२, वीथी, -विषो आपथी
 ५, २१, ९, वीथी, -विषु आथी
 १, १, ४, शीथी ३, १२, १५,
 आथी २१, २, ८, आपथी, -विषु
 माथी १, १४, ९^{१०}; २, ३, ४,
 वीथी, -वीषि आथी १, ५,
 २७, ३, ४, १३, १०, २०xx,
 काथी, -म्माथी ७, २३,
 ३, १३, ११, ३, वीथी ४, ८,
 २३, २४, ६ ४, माथी ७,
 १८, १, हिथी ४, ४, ७४.
 हवि कर्मन्- म् आप २३, १०,
 ६
 हवि-वे(ग>)मी^{१०}- वीन् वीथी
 ४, ८, ११, -व्ये वीथी १, ७,
 १५, १२, १०
 हविर्-अथ^{१०}- वम् गा ७, ७^{१०}
 हविर् लनुमन्त्रण- पाम् विष
 ७३, १३.
 हविर् अन्त^{१०}- अन्तम् शीथी २,
 ५ २५
 हविर् अन्तरण^{१०}- लोकाथी २५,
 ५ १५

d) पामे वेप १, १४७४ ई द । b) वेप १ द । c) पामे वै १ हव्या शी ३ १०, ६ डि द ।
 d) पामे वै १ हवि मे ३, १०, २ डि द । e) = १ उदक- । f) पामे वै १, १२८८ m द । g) पामे
 वेप १, २२२३ b द । h) पामे वै १ हविष काठ ३९, १३ डि द । i) पामे वै १, २४३६ ० द ।
 j) पामे वै २, ३४ हविष तेवा २, ५, ३, १ डि द । k) पामे वै १, २४३६ h द । l) आन्ये हविषि>
 या वीथ १, ५ २० आन्ये हविषि इति पामे । m) उठ उप कर्तारि अन्त्र १ m) वस । o) उप = विरमण्य-
 (द रिपावर) । <नेप अन्तरण- (<अन्तर√इ [उ अन्तरमन्-]) ।

हविर् अहं- -हांन् काष्ठ ६३, १;
 ज्येष्ठ २, ३ ९, ५ २०.

हविर्-अवदान- -नम् आपथी
 ९, १८, १५, वीथी २८, ७. ९;
 वैथी २०, ३६: २, -नस्व आपथी
 ४, १, १२

हविर् भवहना(न-अ)र्थ- -धम्
 आपथी १३, १९, ८.

हविर्-भाकार- -रा. वीथी २४,
 १: १८

हविर्-आवधन- -नम् वीथी
 १, १: २, २०, ४ ३३, भाथी,
 -नाति वीथी २०, १. ३७,
 -नाथ वीथी ५, १: ६, ५. ४

हविर्-आर्वि- -तिषु वैथी २०,
 १०: २.

हविर्-आसादन- -नम् काथी ५,
 ८, ३१, -नात् वैथी २०, १६:
 १०

हविरासादन प्रभृति- -तीनि
 हिथी १४, ४, ४७

हविर् आहुति- -त्रयः वप्र ३,
 ५, ११, -ति हिपि १९: १०,
 -हुतिम् भाथी ४, १४, ३,
 माथी, -तिषु गोष्ठ १, ९, २०,
 कप्र १, ८, २३, -ते माथी ५,
 २, १०, २७, -वी माथी ५,
 ३, १०, ३७

हविराहुति प्रभृती(ति-इ)टा-
 (टा अ)न्त,न्ता- -न्त आपथी
 ७, २३, २, -न्तम् आपथी २१,
 ४, ९, -न्ता आपथी १३, २४,
 १०, हिथी ९, ६, २४, १३, २,
 २५

हविराहुति स्वियहृत् हृ-
 -हेम्ब. माथी ५, २, ५, ९.

हविर्-वक्त- -नम् वीथी २२,
 २: १९.

हविर्-उति- -त्तौ वैथी ११,
 ११ ६

हविर् उच्छिष्ट- -धम् आथी ५,
 ७, १०, १३, १९x४, वीथी,
 -दानम् वीथी २०, १४ ३,
 -दानि वीथी ६, २०.

हविरुच्छिष्ट-मक्ष- क्षा
 आथी १२, ८, २२

हविरुच्छिष्ट-भोजिन्- -ती
 लाथी १०, १८, ११.

हविरुच्छिष्ट प्रत- -त
 आपथी २३, १४, ४, वीथी २८,
 ३ ७, हिथी १८, ४, ५८

हविरुच्छिष्ट रोप- -धम् गोष्ठ
 ३, ८, १२

हविरुच्छिष्टा(ष्ट-आ) रा-
 -रा काथी ५, ६, २४, आपथी
 ८, ११, ८, १८, ६, १३, भाथी.

हविरुच्छिष्टा(ष्ट-अ)भान-
 -न काथी ३, ८, १३

हविर्-उद्गासन- -वे वैथी ९,
 २४

हविर्-नाग- -ये मीम् ८, ३, १

हविर् गम्ब- -न्य विष १, ७

हविर् गुण- -या नाथ ११,
 ३२, ३३, विष ८१, २०, -प्यात्
 विष ८१, १९.

हविर् प्रह(प>)नी- -ग्याम्
 काथी २, ३, ३२

हविर् देवता- -ता वैथी २०,

३ ८०.
 हविर्देवता धाम्यापुरोनुवा-
 कथा(कथा-आ)हुति- -तीनाम्
 वीथी २७, १: १९

हविर् देवता-उपाख-सामा-य-
 म्ये वीथी २७, १४: २७

हविर्-देवता-सामान्य- -म्ये
 आपथी २४, ३, ४६.

हविर्-रोप- पात् वीथी २७,
 १: १.

हविर्दोषे(प-उ)क-रोप-
 -य वीथी २९, ४ ५

हविर् द्रव्य- -व्यस्य वैथी ११,
 ९. २

हविर् धान(वप्रा)- -पाग ५,
 ३, ६१, -न श्रम २१०, ११^१,

-नम् काथी ८, ४, २१, ८, २, १०,
 ८, २१, १२, ४, १०, आपथी १,
 १७, ८^१x४, काठथी, -नयो:

काथी ५, १४, २१, ६, ३, ८,
 आपथी, -नस्व काथी ४, ९, ३,

५, १२, ३, ८, १३, २५, काथी,
 वीथी ८९ ११, -न व काठथी

१००, माथी २, ३, ६, १, हिथी,
 -ननास्याम् काथी ५, १३, २,

काथी ८, ४, १, आपथी ११, ६,
 १०, वीथी, -वे काथी ४, ९, १,

१०, ९^१x४, काथी, वृत् १,
 ११३, ४, १२^२, ६, १५५, दुषा

१, ३२१^१, ना २, ३६^१, मीम्
 १२, १, १४

हाविर्धान- -पा ५, ३,
 ६१, -न श्रम २, २, ४१, -नम्
 श्रम २, १०, १३

e) उप = २आ-कार-। b) मलो कस । c) वस । d) = दुष्-। उप करणे ल्युट् प्र ।
 e) सप्र आपथी ९, १५, १४ वीथी २७, १३: १० पदा देवता इति पाठे । f) हस > पस । g) सस > नस ।
 h) वैष १ द । i) न्यप । j) नी इति पाठ । कनि शोच (हु व. म. १ मा ५, १७) । k) साउर्य-
 देवतायै अण् प्र ।

हविर्धान गव- ते वाध्री
 ३ १, १, ५
 हविर्धान प्रक्षालना (न-आ)
 दि- दि काथी १८, ६, ७
 हविर्धान प्रवर्तन- नाव
 वाध्री ५, १३, १, -ने वाध्री
 ३, १, १, ७३
 हविर्धानप्रवर्तना(न अ)
 श्रीपोमप्रत्ययन- नयो द्राध्री
 १, ३, ३०
 हविर्धान सान्नांशीप मैत्रा-
 यरुथीय- न्यानाम् माध्री २, १,
 ५, २०
 हविर्धान वद आपध्री ११,
 १०, १४, वैध्री १४, ११ ५,
 १०
 हविर्धान-सनिवि- धी वैध्री
 २३, ६ २
 हविर्धान(न-आ)श्रीध
 मवस- नसि आपध्री ११,
 १५, १
 हविर्धान(न-आ)श्रीध्रा(ध-
 अ)नर- रे काथी १३, ४, १७
 हविर्धाना(न-अ)म्व- ते
 माध्री ५, ३, १६, ९
 हविर्धाना(न अ) परान्त-
 न्तम् काथी ८६, १०
 हविर्धान(न अ)मिमरुर्वा
 (सि-आ)दि- दि वैध्रीका
 १५८
 हविर् पूमा(सि-आ)ङ् (ल >)
 ला- ला अम ५५, ५, २
 हविर् निर्वपण- णम् आपध्री
 ४, ४६, वाध्री १, १, १८
 हविर् निवेदन- नम् वैध्री ६,

२०. ७
 हविर् भाव- भाज. वृद ८
 १२९, शुभ १, ७, या ७, १३;
 -भाजि या १०, ४२
 हविर् भेद- दाव् मीम् १०,
 ७, ३
 हविर्-भोजन- ना हिध्री ५,
 ३, २७, -नेम्य वैध्री १, ३ १
 हविर्-मिथ- श्रेण धामिष्ट २,
 ६, ७ ३२
 हविर् श्रेय-विधि- पि वीध्री
 २७, ४ २०.
 हविर् यज्ञ- श्वा शोध्री १४,
 १३, १४, निम् १०, ८. १६,
 वैध्री १, १ : १, शय ११,
 -शानाम् वाध्री ४, ५२ ६,
 ५५ ११, -शे कापु ७, १०,
 -श्रेय वाध्री ४, ३ ५
 -शम्प काथी २४, ४, ३९,
 वीध्री १४, २ : १६, -शेषु
 काथी १४, ३, १, वीध्री १४,
 २० १६, ९ २७, वाध्री, १,
 -शे आपध्री २३, १०, ८०,
 वाध्री ४, ५२ ५, लाध्री
 हविर्विशिक्त- न्वाव्
 लाध्री १०, १०, ६
 हविर्विशिय- नम्
 वाध्री २५ २, २१
 हविर्विश्व- नम् वाध्री
 ४, ५२ ६, ५५ ११
 हविर्विश्व प्रक्रम- न्वाव्
 निम् २० ८ १८
 हविर्विश्व-मास- सि हिध्री
 १८, ४, ३०
 हविर्विश्व पात्रिन्- जिन

आमिष्ट ३, ७, ३. २७, वीधि
 २, ३, २, हिधि १२ : ९
 हविर्विश्व(ह अ)विज्-
 -रिदिग वाध्री ९, १२, १६
 हविर्विश्व-वि(धा >)ध- य
 वाध्री ४, ३ १, ५, -शे वाध्री
 ६, २, ४.
 हविर्विश्व-सम्पा- -स्था
 वीध्री २४, ४ १, ५, दाध्री
 १३, ४, १६, वाध्री ५, ४, २२,
 गौव ८, १७, -स्थानाम् लाध्री
 ५४, २१
 हविर्विश्व-वम् आमिष्ट
 ३, ६, ३ २७, ७, ३ २६, वीधि
 २, १२ ३, २ १, हिधि १० १
 हविर्-विष्वा(अ-अ)श्रुति-
 त्व- न्वाव् मीम् १०, ८, ४६
 हविर् विकार- र मीम् १०,
 १, ३४, -राणाम् वीध्री २७,
 ४ ३०
 हविर् विशेष- वै शय ८२
 हविर्-मत्- त वीध्री ४, ५, ४
 हवि-मवद- न्वाव् काथी २, ८,
 १३ मीम् ६, ४, २२
 हवि, म्-शेय- णम् माध्री १,
 ७, ६, ४०, माष्ट २, ३, १४, १,
 वाध्री ५, ४३, १, वैध्री, -वाव्
 आपध्री ३, ४, ५, ७, १५, ४, ४,
 माध्री ८, १९, ११
 हवि शेष दानो(न-उ)क-
 -के वैध्री ११, १ : १२
 हवि शेष-म्व- अ काथी
 ८७, २३, २४, ७, ७
 हवि प्रपण- णम् वाध्री १,
 १, १ २१

a) = पर विशेष । उच । b) वैष २, ३४ द । c) स्या हविर्विश्वे <> हविर्विश्वमासे इति
 पथे । d) तरुभेदमीयम् उचू प्र । e) इदमर्थे षण प्र षस (पा ५, १, ७१) । f) षण । g) षस उच
 भावे षक प्र । h) विप (पाथविता) । भवार्थे ष प्र । i) भाध्री कापु षठ ।

हृविष्-वरण^०- -णम् आश्री १,
१,५, शाश्री १, १४, १७, -जे
आश्री १,७,७, शाश्री १,१३,१,
हृविष्-हृत्^०- हृत् वीश्री २३,
४: ९, १६ १९, २२,११ ८,
२५, ३१ ७, माश्री, -हृ^०हृत्
काश्री २, ४, १३, आपश्री १,
१९, ८, १^५, वीश्री, -हृत्
आश्री १, १२, १६^०, आपश्री
१, १६, ७^०, वीश्री, -हृत्तम्
काश्री ८, १, १७, आपश्री १,
१९, ८, वीश्री, -हृत्ता शाश्री ७,
७,२^०, काश्री २,४,९^०, आपश्री,
कोत् २,६^०, -हृत्ति वीश्री १६,
३ २८

हाविष्कृत^०- -तम् निम्
८,४ २,८ ६.

हृविष्कृद् धमिगु पुतेनुवा
रुषा-मनेते^०- -तस्य आपश्री
२७,१,४३, मीम् ११,४,५५

हृविष्कृद्-अन्व- -न्ते वीश्री
२०,२ १४, २१, ८ ३३

हृविष्कृद्-अवहनन मन्त्र-
न्द्र आपश्री ६,२९,१६

हृविष्कृद् आह्वान- -नम्
काश्री ६ ७,१८.

हृविष्कृद् रूप- -यम् वीश्री
२०,११ १०

हृविष्कृद् निघण्टु^०- -यम्
वीश्री १६ २४ १०, हिश्री १३
७,३३, १७ ६,१३, भाशि ५२

हृविष्-हृत्ति^०- -तिम् मीम् ५
११

हृविष्-व(<त्)व() शाश्री १,
१६,३६,१७

हृविष्-व(<त्)- -वम् निम्
१०,९ २०

हृविष् पदिक-प्रगण^०- -नै
वृं १,८६

हृविष्-पथ- -य वीश्री २५,२०
५, -येन माश्री ७,२,३३

हृविष्-पात्र स्वाभृ(वि ऋ)
विष्- -विनाम् काश्री १, ८,
३१

हृविष्पान्दीर्घ^०- -यम् वाप २६,
७^०, या ७,२३

हृविष् प्रकल्पन-त्व- -त्वात् मीम्
३,५,९

हृविष्-प्रवाद- -यम् निम् २
११ १२

हृविष् मव^०- -हृ^०म आश्री
७, ७, ५, शाश्री ५, १०, २७,
-मव वीश्री ५, ८ २^१, -मता

आश्री ६ ५, २४^१, -हृ^०मन्त
आश्री ७, १३, ७, आपश्री,
-मन्तम्^० शेष ११६ ६१,
-हृ^०मात् आपश्री ७ ८,४, ९, १,
११, वीश्री, माश्री ३ ३,३^१

हृविष्मती- -तो वीश्री
१२,१ १७, शब्द ६,८४, -वी
काश्री ८,९,९, आपश्री ५ ६,३
११, २०,९, काठश्री, -तोम्
शाश्री १७ ५४,२

हाविष्मव^०- -उम् निम्
७,३ २५,२८,२९, ८,४ ३

हाविष्मव-सौक्ष-
-शे निम् ९,४. ३०

हाविष्मव-हृविष्कृत-
ते निम् ८ ४ १, ५

हृविष्मव-निघण्टु^०- -नम्

वीश्री १६ २४ ९, हिश्री १३,
७,३३, १७,६,१३

हृविष्प,व्या^०- -पा ५, १, २,
-हृ^०प्य आपश्री १७, १८, १,
वीश्री ६, १.९, ७, ३ १४,
२१,१० २६, -प्यम् काश्री ७,
२, २, काठश्री, -प्यस्य वाठश्री
१५२, आप १,२,१, वाय १७,
३, गोष्ठ, -प्या. जेष्ठ २, १

३, शुभ १,३७, ३९, -हृ^०प्या
माश्री १, २, १, ११, माश्री १,
३, ४, ८, -प्यागम् वीश्री ११,
११ ७, -प्यात् काश्री २, ३,
१६, माश्री ८, ५, २०, माश्री,
-प्येण आप १, ४२, २, -प्येणु
काश्री २५ ७,५, वय १,९, १०,
-प्ये काय ६७,१, गोष्ठ १, ४,
३, जेष्ठ २,१ २^३, वीश ३,८,
१०

हृविष्प- -पा ७,४, १२२,
-हृ^०प्यम् माश्री १, २, १, ११,
काश्री १,२,४,८

हृविष्प-कवा- -तपम् वाय
१९,१

हृविष्प मय- -त्राधि काश्री
७,८,२

हृविष्प पुण्याह^०- -ह वाय
२०,१

हृविष्प-प्रवृत्ति- -ति वीश्री
२९,११ १७

हृविष्प मश- -श मीम्
८२,४४, -शा कौष्ठ ६७,११

हृविष्पमश-शा- -ता
शाश्री ७,१५,६, कौष्ठ ५ ४,९

हृविष्प मुन्- -मुष् विप

a) वैप १ ४ । b) = (उपकारव) गज- (हृ आपश्री १ १९, ८, १) । c) = साम विशेष । d) समाहारे द्वय ।
e) पस > यस । f) < हृत्रिप पुान्त्व (ऋ १०, ८८, १) । g) हृविष्प इति पाठ १ यनि शेष (हृ B. 1. C च) ।
h) = अश्विरसामन्यताम्- । i) *म्व इति पाठ १ यनि शेष (हृ ऋ १, १३, १) । j) विप, नाप । k) = कर्म-विशेष ।

८९, ४; -भुग्भिः अय ३०^१, १, ३.

हृषिप-भोत्रिन्- -त्रिन्ः अय ३१, ७, १.

हृषिप्व तय काश्री २५, ७, ११.

हृषिप्वन् (त >) वा- ना वैश्री २०, ४ : ७.

हृषिप्व-सज-होम^१-वृ- देस- -शे माश्री १७, १, २३.

हृषिप्व-रकज- -जम् वाश्री १५, १, ८^१.

हृषिप्व्याच- -चम् अय ६९, ८, ३.

हृषिप्या(व्य-अ)स- -सम् आश्रित २, ५, १ : ३४; -प्रानि काय ३९, २.

हृषिप्या(व्य-आ)शिव्- -शिवो वैप ३, ८ : १; -त्री आश्रित २, ४, ५ : २१; वीथ ७, ७, ६; विथ ५५, २; ८९, ३.

हृषिप्यो(व्य-उ)दक- -कम् वैप २, १ : ८.

हृषि संशका(र >)री^१- -रीम् वीश्री २७, २५ : १६.

हृषि-संस्था^१- -स्थाः काय १, १, १५.

हृषि-सामान्य- -न्यम् वीश्री २७, १४ : २६; २७, द्विशी ३, ८, २८, -न्येन द्विशी ३, ८, २७.

हृषि-स्पन्दना(म-आ)प्रापित- पतित-सुदित- -तेषु वीश्री

२८, १० : २.

हृषि-सुति- -तिः निम् ६, १३ : ३२.

हृषिः शिरःकृत्- -कृतम् माश्री ५, १, ४, १७; ६, ४६; ७, ४२.

हृष्य, प्या^१- -प्यम् ऋशाश्री १, ११, १३^१; २, १४, १२; ३, १; ३, १०, ८^१, १२, २२^१, ६, १४, १६;

ऋशाश्री १, १७, १९, ४४; १२, १६, १^१, काश्री; वीथ १, ९, १३; १४; दाय १, २, १९; वय १, ८, १६; २, ९, ८; ३, ५, ३;

-ऋष्या आश्री ३, ५, ९; ७, १२; १२, २७; शाश्री; माश्री १, ६, ३, ५^१; माय २, १, ८^१; -ऋषानि

शाश्री ३, १८, १५^१, आपश्री; वृदे ५, १७; ७, ६५; -ऋष्याय

आपश्री १, ४, १७; १७, २२, २; वीश्री; -व्ये आपश्री १७, २२, २^१; द्विशी; -व्येन आपश्री १२, १४, १२^१; द्विशी ८, ४, १४^१;

वैथ ५, १ : २३; -ऋष्येभ्यः आपश्री १७, २२, २, द्विशी १२, ६, २६.

हृष्य-कन्य- -न्यानि वाय ३, ८; -व्येषु वीथ २, ८, १६.

हृष्यकन्य वद- -दी वृदे ६, १६०.

हृष्यवन्वा(व्य-आ)दि- वेग- -वत्^१- -वान् विप १, ७.

हृष्य-जात- -जम् वीथ ११६ : ३३.

हृष्य-सुति- -तिम् आश्री ३, ८, ११^१.

हृष्य-शक्ति^१- -शक्तिं वाश्री २५, ११, ३४; आपश्री १७, ९, १^१;

वैश्री १२, ६ : ४^१; अत्राय २, ७; अय ७६, ३, ५.

हृष्य-सुत्- -सुत् काय २, १३, ६.

हृष्य-वाह (ल्क्^१)- -ऋषाद् आश्री १, ३, ६; १०, ५; २, १, २१; ७, ११, ६; शाश्री १, ४, २०; ७, ९, ३, ४; -ऋषाहम्

आपश्री ५, ६, ३, ४; वाश्रीर्ष; द्विशी ३, २, ५६^१.

हृष्य-वाह^१- -हात् आपश्री ५, १, ४; वीश्री २, ६ : ३२; वैश्री १, ४ : १६; द्विशी ३, २, ३.

हृष्य-वाहन^१- -वा पा ३, ९, ६६; -ना आश्री ७, १२, २^१; ऋशाश्री ६, १२, १५; ९, २७, २; आपश्री;

अय २७, ३, ५; वृदे ७, ७७; -नम् वीथ ३, १०^१; -नाः अत्राय २, ९; -हने वृदे ७, ६३.

हृष्य-शोधन^१- -ने आपश्री १, ६, १०; २, ८, ६; वीश्री; -नो आपश्री १, १४, ६; द्विशी १, ३, ५७.

हृष्य-सूक्ति^१- -क्तीनम् माश्री ५, २, ८, २०^१.

हृष्य-सूद^१- -सुः आपश्री ११, १४, १०; वीश्री ६, २९ : १८; वैश्री १७, १३ : ५; द्विशी

a) पय. > पय. (द्व. काश्री १५, १, ८)। सज- = सज-। b) व्यसजम् इति चीरो.। c) = इविः संशका- (द्व. विवाधरः [काश्री २, ४, १३])। उत.। d) = हृषियस-संशका-। e) वैप १ द.। f) पामे. वैप १ हृष्यम् वै १, ४, ३ टि. द.। g) पामे. वैप १ हृष्यम् अ १०, १६, ९ टि. द.। h) वैप १ हृष्यम् वी २०, ११५, ११ टि. द.। i) विप. (पञ्चराह-)। j) पामे. वैप १ हृष्यसुदम् अ १, १५२, ७, ७, ६५, ४ टि. द.। k) काश्री. पाठः। l) पामे. वैप १ हृष्यवाहनम् अ ५, ८, ६ टि. द.। m) वैप २, २७^१. द.। n) पामे. वैप १ हृष्यसूदः मा ५, २२ टि. द.।

१०,३,४२
 १ह्वय सुन्द- न^० शशी
 ६,१२,९, जैश्री १३. १^०
 हावक- का वप ३१,७, १
 हावन-> शीव- या वीष ४,
 ८,१
 हावविला आपण ११, ६, आपण
 १,२५,१३, द्विष १,७,१०
 हुत,वा- न आपश्री १,१३,७५,
 ६,३०,२, १२,२०, २०, वीश्री
 १, ३ ११^३xx, दध,४ २^०,
 माश्री १, ८, ३, ३१^१, वैश्री
 २०,२४ ८,२१,१६.८, वीश्री^०
 १,१,३,६,७^३, शीश्री १,५,
 १, १०,७, ८, पाण १,४, १^०,
 काण १३,२,३, वीश्री १,१,१,
 ३, १०,१७, ४,१, २, जैश्री १,
 १४^०, वृदे ३,५, -तम् आश्री
 ३, ११,११^१, ४,७,४^१, शशी,
 आपश्री ४,९,९^१, ९, ६,३^१,
 माश्री ४, १३, १^१, ९, ८,
 ९^१, माश्री ३, २, ५^१, द्विषी
 १५, २, ११^१, -तम् ३ तम्
 आपश्री ४, ९, ७, १२ १३, १,
 वैश्री, -तयो शशी २९, १०,
 शशी १, ४, १, १३, १, २२,
 लाश्री ५,२,४, दुम् १,११ ३,
 -तस्व आश्री १,७,२^१, शशी,
 -वा वीश्री १,१ २२, शप ४४१,
 -वा वाश्री ३ ९ १९, ३०^०
 ३, ५,७^३, काण १,१,२, -तम्
 वीश्री २५, २२ १, लाश्री ४
 ११,२२, -तम् आपश्री ४,११,

६, माश्री २, ४, १, २१^१, वैश्री,
 -तानाम् काण १३, ३, -तम्
 आपश्री १४, १८, १, १९, ३,
 २, शप ४६ ६, ४^१, -तम्
 आपश्री २०,१५,६, वीश्री १५,
 ३४-९^३, द्विषी १४, ४, ५२,
 -तानाम् वाश्री ३,५,१,६ १४,
 १०, शशी, -तानु शशी १४,
 ७,११, आपश्री १२,२,३,८,५,
 काश्री, -ते शशी २, १६, ३,
 ५,१९,१७, ७,४,१५^१, वाश्री,
 वीश्री,११,१^०, -तानु वीष २,
 ३,६२, -तम् वप ७, ९७^१,
 -तम् शशी ८, ९,१, १३, १४,
 ६, काश्री, -ते शप ३६, १२,
 १, -तौ अश्री २०, ३१^१.
 हुत प्रहुत(त-अ)तुकृति-
 -तम् वीश्री ३,७,२९^१
 हुत भाग- न वीश्री ७२,
 ३४^१
 हुत भुज- भुज शप २४,६,२
 हुत मा- ने अश्री २१,७, ४
 हुत-वैष- वम् काश्री १०, १,
 २३, वैश्री १०, १ १०, १५,
 १२ १०, शप, -तानु वीश्री
 ३, ५, १, ७, १२, शप ४, ५,
 १०, -तेन वैश्री २१, १६ ४^१,
 वीश्री
 हुत हुतावन- न शप ३७
 हुत होम- न वीष २, १०,
 १६.
 १हुता(त-अ)शिशोत्र->
 शिव- शी वप २७० २

२हुता(त-अ)शिशोत्र- न
 वीष २,३,१८.
 १हुता(त-अ)द- ताद माश्री
 २,५,५,२०, -तानु वीश्री ७३,
 १४, -तादम् आपश्री १६,३५,
 १, वैश्री १९,१ ८, द्विषी ११,
 ८,२१
 हुता(त अ)श- -तानु वैश्री ८,
 १:२
 हुता(त अ)तुकृति- -ति वीश्री
 ३,१,१
 हुता(त अ)तुमन्त्र- -तम्
 वीश्री २८,२ ३७, वीष २,
 ७, ११, -तानु वीश्री २७,
 १४ १
 हुता(त अ)श- -तानु शप २४,
 ५,४, ५ -ते अश्री ५, १,
 विष २९ १२
 हुता(त अ)श- -न शपिण्ड
 २, ६, ७:९, शप, -तम् अश्री
 ६८,५, १, शप ८१, विष ३४,
 २, -तानु शप ७०^१, ११,१८,
 -ते अश्री २१, ७, ६
 हुता(त अ)हुत- -तानु शशी
 १३, १२, ७, आपश्री, -तौ
 आपश्री १४,३०,२, काश्री
 हुताहुत शप- शप वीश्री
 २७, १ २०.
 हुताहुत-सर्ग- शी वीश्री
 २५,११,१.
 हुता(त-अ)हुता(त-अ)तुकृ-
 ति- -तानु: शपिण्ड २, ५, ३.
 ४७^१.

a) वैष १३ । b) वामे वैष १ ११-३० । c) वामे वैष १ हुतसुन्द मा ५ ३२ टि ।
 d) कर्ति षुव् प्र । e) = वाषपहाड-वतम- । f) वामे वैष १ हुतसुन्द त ३,१, ४, १ टि ।
 g) वामे वृ २७१३ । h) वामे वैष १,११५६ वृ । i) तम् आपश्री १२,२३,४ हुता इति वामे ।
 j) इम > वत । k) तया हुतप्रहु << हुताहु इति वामे । l) वत । m) वृ आपश्री १४,३०, २
 प्रम् । n) = अश्री । उप कर्ति < वम् (शोकने) ।

हुतो(त-उ)विष्ट- अय अय
 ३७,६,१
 हुतोच्छिष्ट-अय- अय माथी
 १९,१,१३
 हुतो(त-उ)च्छेप- -णात्
 वीथी २४,३३:८.
 हुत्वय- वते आथी ३,१३,१७.
 हुवि- -नी वीथी २१, १६. ६*,
 हुत्वा चाथी २, ६, १०, चाथी २,
 १, १७, आथी १२, २३, ७७,
 वीथी, हुत्वाऽहुत्वा चाथी २६,
 ६,१२, आथी १९,९,७, वीथी
 १३,३३:५, माथी.
 हुत्मान,ना- व आथय ३, ११,
 ३, अय २४, ४, २x, -नम्
 आथी ५, २, १: १७,३, चाथी,
 -नयो दाथी १५,१,१२, चाथी
 ५,९,९, -नस्य हिय २,८,१०,
 -ना वाधुयौ ४,८७,९, आथ १,
 १, २, -नाम् आथी १०, ८,
 १, १७, १८, १, १९, ३, २,
 -नायाम् चाथी ५ १४,१४, १६,
 ६,७, १, वीथी, -नासु आथी
 २०, ६, १४, चाथी, -ने चाथी
 ९, १३, ३५, वीथी १५, २६
 ५, हिथी, ज्यौवा ५९०, -नेषु
 चाथी १०,९,३९, आथी १२,
 २४,५, वीथी १५,३१:४
 हुत्वय,व्या- व आथी ६,३०,
 ५, वीथी, -व्यम् आथी ६,
 ४, ७, ११x, चाथी, -व्या
 वाधुयौ ४, ६०:११३,
 कय २, ९, १२, वीथ ४, १३,
 अय २६,३,३, -व्या: आथी
 १९,१७,२०,२१,२२,५, वीथी।

-व्ये वीथी २८, ११:९,
 वाधुयौ ३, ३९:८; १४, २०;
 कय १, ९, १४; -व्यो आथी
 २, १२,८; १२,१३,१३.
 हुत्वम् आथी १२,८,१०; वीथी
 २०,२३-१०, गोथ १, ८, २;
 वीथ ४,८,७.
 हुतोस(ः) आथी ९, ६, ९३;
 माथी, पा ३,४,१६.
 हुत्म्- पाठ १, १४०, -म आथय
 ४, ३०, -म आथी २, २, ९,
 चाथी ८,१५, ७, चाथी, -मम्
 चाथी ४,१३,३, ९, ६, २८x,
 आथी; -मयो. हिथी ८, ७,
 ४०, आथिय, -ना चाथी १,
 ८, ४३; ६, १०, २३; आथी,
 -मात् चाथी २, २, ७, ३,११,
 १५, १२, २७, चाथी, -मात्
 आथी ४, ७, २१, ५, २९,
 ११x, चाथी, -मानाम्
 वाय १, २०, गोथ ४, ५, ६,
 -माय आथी ९, १३, १०,
 माथी, -मे चाथी २, ४, २५,
 आथी १८, १३, १९, वीथी,
 -मेऽ-मे वीथ ७३, २१, -मेन
 आथिय २, ७, ४: १७, वीथ
 ४३; -मेव चाथी १२, १, २,
 चाथी ४, ६, १, -मेसु आथी
 २,३,१९, वीथी २७, ६: २१,
 वीथी ६,२: ६, वाय, -मै अय
 २१,९,८, ५१,५, ३x, वाय,
 -मौ आथी २,२०,५, ५, २३,
 ४, १४,३३,८x, वीथी
 हुत्म्- -व्यम् चाथी २५,
 २,३,७, ११.

हुत्-वर्मन्- -मं अय २८,१,३;
 -मैणि वीथ २,७:७.
 हुत्-वल्प- -वय: आथी ९,
 ७, ११; माथी ९,९, १२; १०,
 ११; हिथी.
 हुत्-काल- -त्. आथी ३,१२,
 १; आथी, -लस्य कय २, २,
 १२, -काल चाथी ३,११,१७,
 आथी ९, १०, १, वीथी २०,
 ११: ६, -ले आथी ६, १५,
 ११, ९, १०, २; वीथी, -लेषु
 वीथ ४, १०:१.
 हुत्-काण(स अ)वय- -ये
 कय ३,१,२.
 हुत्-वह- -हाणि चाथी ३, ३,
 २,९, -हाम्याम् हिथी १०, ७,
 १३.
 हुत्-चोदना- -नासु चाथी २,
 ३, ११.
 हुत्-च्छेद- -ने चाथी ७,१,
 २९.
 हुत्-तस(ः) अय ३६ १०, १;
 १९,१.
 हुत्-दान-प्रतिग्रह-व्याख्याय-
 या विथ २२,६.
 हुत्-देवता- -नाया: माय ३,
 १८: २.
 हुत्-द्वय- -व्यम् वाय ४५:
 १६, १७.
 हुत्-द्रवा(य-अ)वय- -व्ये कय
 ३,८,१०.
 हुत्-निर्मुक्ति- -त्ति: कय ३,
 ७,४.
 हुत्-पात्र- -अम् अय १,८,११,
 -वाणि अय २३,१, २.

a) कय, आथी १४,३०, २ अक्षरे इति पाठे । b) पाठे पृ २८०:३ इ । c) पाठ ३ । कय-
 वीथी २३: १३ हिपमाणे इति पाठ । d) विथ १ इ । e) पाठ १ । हुत्मात् इति संस्कृतिः टि । f) विथ.
 >नाय । तत्त्वदीयं पय प्र. वसं (पाया ४,१,८५) । g) इव ।

होम-प्रमाण-निर्देश- -वा
 आश्रित २३, १ १५
 होम भक्ष^०- -क्षौ काशी २०,
 ४, २५
 होम-मन्त्र- -मन्त्र वैश्व १, १६
 १, १९ १, अथ ६६ १, २,
 -मन्त्राणां शोभी १, २, २२, कथ
 २ ७, १६, -मन्त्रै काथ २८२ ३
 होम-मात्र- -मन्त्रकाशीतद्वे ४
 होम-मार्जन^०- -ने वैश्वी १७,
 १ ३
 होम लिङ्ग^०- -ङ्ग विध १, ६
 होम-लोप- -व कथ २ २, १०
 होम-उन्म^० दार १, १, २१
 होम-वाचन- -नम् अथ ७१,
 १९ ९
 होम विच्छिन्नि- -त्तौ माण्ड ३,
 २१ ११
 होम विधि- -धि कथ १, १, २
 होम-वेला- -श्यामा माशी १,
 ६, ३, ११
 होम-ज्वाह- -वे द्विती ८, ७,
 ४०
 होम-मयुक्त- -के आश्वी १८,
 ११, २०
 होम-सयोग- -शास्त्री मीम् ३ ५
 ७ ६ ८ ११, ८ ४ १ १० ८,
 २८
 होम-समाहित मनस्^०- -ता
 अथ ७० ४ १
 होम-सुवदासना (न आ)गम-
 मैतु वाशी १५ ० १०^१
 होमा(म अ)ङ्ग- -ङ्ग अथ २३,
 १३ ५
 होमा(म-अ)तिक्रम- -म शां

५, ४, ३
 होमा(म अ)ऋष- -ये कथ २,
 १, ७
 होमा(म आ)घ(दि-अ)र्ष-
 -र्षम् माश्वी २०
 होमा(म अ)नृत- -तम् माशी
 २ १, २, ३२
 होमा(म आ)त- -ने वैश्वी
 २, ६ १०, वैश्व, -न्तेषु वैश्व
 १ २१ २४
 होमा(म अ)त्त^०- -मन्त्र शोभी
 ४, ४, १०, माशी ४, १, २४
 माशी १ ८, १२, वैश्वीवा १५८,
 द्विती २ ७, ३४
 होमा(म-अ) भिगमन स्थाली
 पाठ- -केषु भाण्ड ३ २१ १४
 होमा(म-अ)भिपय- -न्यान्वा
 आश्वी १२ २५ १७, द्विती ८
 २, २७ ७ ३८, मीम् ३ ५ ३३
 होमाभिपय कारिद- -री
 काशी ९ ११, ११, माशी २ ४
 १ ३१
 होमाभिपय निमित्त^०- -त
 वैश्वी १५ ३१ ६
 होमाभिपय मक्षण- -मम्
 मीम् ६ ४, २५
 होमा(म अ)र्ष^०-> ०र्षिद-
 -र्षी कौश्व २, ६ ११^१
 होमा(म अ)र्ष^१- -र्षिद वा
 १४ २७^१
 होमा (म अ)र्ष^१ वा^१- -र्ष
 वाण्ड ७ ११^२ -र्षम् गौण १
 १ २९ -र्षेय काशी ४ १४,^२
 -र्षा आश्वी ६ १३ १, १४
 १५ ३ -र्षानि वैश्वी ९ ६

१७, -र्षाम द्विती ७, १, ६७,
 -र्षे द्विती १०, ७, २५ १३ ५,
 १३ कौश्व -र्षेषु अथ २३ १, १
 होमार्थ-त्व- -त्वात् मीम्
 १२, १, १०
 होमा(म-अ)र्ष- -र्षेण आश्रित
 ३ ११, ३ १०
 होमा(म अ)वसान^०- -नेन अथ
 ४०, ३, ९
 होमा(म-अ)वृत्- -वृत् जैश्व
 १, ३ २४
 होमा(म अ)समर्ष- -र्षेय कथ
 ३ २ १
 होमा(म आ)सादन^०- -नयो
 काशी १८ ४, २१
 ✓होमि होमवेत् अथ १४, १,
 १, १९^१, ४, १४
 हो(म् >)म्या- -म्या
 अथ ३६ ७, ४
 होमिन्^०- -मिनाम् वाप २६,
 १२
 होमोप^१- -यम् गौश्व १ ३, ५
 होमो(म-अ)क्लेपण- -मम् वैश्वी
 १७ १६ ९
 होमो(म-अ)वस्वान-व्यत दर्श
 पूर्णमास- -मै वैश्वी २९ ७ ५
 होमोप^१- -म्यम् वैश्वी २, २
 २०, ३ १ ३१, ११ १२,
 आथ, -मै कौश्व ७ ३, ३
 होमव^१- -पाठ ४, १५१, -म वा
 १४, २७^१
 होमिन्- -पाठ ३ ८४
 होमव- -व्यत काशी ३, १, १७,
 गौश्व ४ २, ३६, -म्यम् वाशी
 १२, १, ४, १३, ३, १३×४,

a) दत्त । b) वत् । c) वत् > कथ । d) दत्त । कौश्व भाष्यान्वर्गत् पाठ । e) वत् ।
 f) वत् अथ = परार्थ । g) वत् । h) मन्त्रार्थीय हति प्र । i) उपमैद्वितीय छ प्र । j) = होम
 दत्त । k) वैश्व १ द. ।
 वैश्व ४ प्र ८४

लाभो, -व्यन् वाधो २, ६, ९,
 काधो ४, १४, १६, आपधो,
 -व्यन्त वाधो ३, ७, १, ५,
 हिधो १६, १, २७
 होव्यमाण-व्या. आपधो २१, ७,
 १२, -व्येषु आपधो १४, ८, ९,
 दिधो १०, ८, ३०
 हुं हुमा ८, २३
 हुं हुद्, हुम् दिधो २०, १, ३९०,
 लाधो ७, ११, ३, ७, हिद् २,
 ४, १७, अप ३६, १, ४, ९, ३,
 क्त ५, ६, १, पाण १, ४,
 ५७४
 हु√ह>हु-कार-नेन हिधो २०,
 १, ३६, हिद् २, ४, १०१०, शध
 २२६
 √हुद् पाधा भ्वा पर गती, हुदा
 पर. लघते.^१
 हुन् निम् ७, ११ १४.
 √हुद् पाधा भ्वा आधम सघाते
 वरणे हारणे च
 हुत-प्रच्. √हु(दाना^०) द्र
 हुस्<>हुस् विष्- चित् निष
 ३ २४१
 √हुद् पाधा भ्वा पर गती
 होव-पा ३, १, १४०
 हुवान- √हे द्र
 √हुद् पाधा भ्वा पर गती
 हुण-पाठधो २, २, १२३
 हुत-प्रच्. √हे द्र
 हुयमान- √हु(दाना^०) द्र
 रह्यमान- √हे द्र
 √ह(<ह)र्षे पाधा भ्वा पर

कीटिल्ये
 हिङ्गि अप ४८, २०१
 √ह(=√भृ.रपा)^० पाधा भ्वा उभ
 हरोणे, तुहो पर, प्रसत्त्वारणे हरो
 वैष्ट ३, २ ९, विध, माशि ६,
 ३२६, हरति शांशो १२, २४,
 २१, काशो, जैष्ट १, ६ ४,
 याशि २ २८^६, पा ४, ४, १५,
 ५, १, ५०, हरत वीधो ५,
 ५ २०, माधो ८, ६, ११,
 माधो १, ७, ३, ४१, हरन्ति
 आधो १२, ९, १०, वाधो ३,
 १९, ९, काधो, माधो १, ८, ५१^६,
 गाधो १, १, २, ८^६, णहारामि
 काधो २, १, १७^१, आपधो, वीधो
 २ ६ ३५^१, १२ १०^१, हिधो ३,
 २, १^१, वीम् ४, १^१, णहाराम
 आपध २, ६, १५, आशिष्,
 हरन्ताम् वीधो २, १० ३११^१,
 णहरन्तु गाधो १, ७, ३, १८, वाधो
 १, ६, १, २२, णहर वाधो २,
 ६, १९, वीधो, णहरन्तु आप्
 ४, ८, ७, २८, हरत वीधो ४, ८
 ०९, अहरत् वृष्टे ३, २२, या ७,
 २६, ११, २, अहरत् सु २२,
 ४, हरेत नाशि २, ५, ३६,
 हरेत् आधो २, २, १४, ३, १,
 १८, वाधो, हरेताताम् वीधो
 २१, २ १५, २५ १
 २२, २ २, नाष १७ ८२,
 होताम् वीध ३७, ५, हरेन्
 लाधो २, १, १६, नाष १७, ३९,
 मरेतु आधो ३, १०, १८, १२,

१७, आपधो २, २०, ६, माधो
 णहार वीधो १७, ४२ २,
 आशिष् १, ३, ५ ५, जर्षे सु
 २२, ६, माशि ५५^१, हरिव्यामि
 आपध २, १७, ८^१, हार्षी आधो
 २, ३, ४^१, पाण ३, १५,
 ७३^१, या १, ५, अहारिषम्
 वाण ५, ३४^१, णहारिषम् आपध
 २, १७, ८, पाण २, ४, ३, आपध
 १२ ४.
 हिषते अप ६८, २, ४४, या २,
 १०^२.
 हारवेत् निष ११, ९
 जिहीवेन्वि हिधो ३, ८, ४,
 जिहीवाम भाण २, २३
 ११
 जिहीरिषु-भ्यु सु २०, २
 जिहीवेत्-भ्यवाम् अप १, ३२,
 ११
 षर-पा ३, २, ९, १०
 हरण-णम् काधो ५, ४, ८, २५
 ८, ९, आपधो, या ११, ४२
 -णा या ७, २४, -णान् वीध
 १, ११, ८, वीम् १२, ४, २५,
 -णान् या ४, ११, -णानाम् वा
 ९ २८, -णे वीधो २०, १७
 १, २६ xxx, हिष २, ६, ६^१,
 गोष
 हरण प्रतिषेध-व पावा ६, २,
 ५२
 हरण(ण अ)सुपूर्व- वीम् वीम्
 ८०, २२
 हरन्-रतो वीधो ५, ५ २१.

a) नासिकधलुररणे अर्थ । b) हुतम् इति पाठ १ यति शोध (द्र. हिण्) । c) पाठे वैप २, २४
 हिषोण मन्ना १, ५, १९ टि द । d) हु ऋण । e) वैप १ द । f) या ३, २०, ४ १९, २४ वा १, ४, ५३
 पाधा १, ३, २१, ४, ५१ ८, २, ३२ पराचष्ट. द । g) परस्पर पाठे । h) पाठ वैप १, २३, ७२ b द । i) पाठे.
 वैप १, २३, ८ d द । j) सग वै १२, ५२ ६ हराम इति पाठे । k) पाठ १ हार्षी इति शोध (द्र ऋण,
 से १, १, १०, ३ शिरी इति न पाठे) । l) पाठे वैप १, २२, २३ द । m) निष, माण । n) पाठे वृ ११, ७६ ८ द ।

-रन् ष्वाश्री^१ १०, ८, १२, १३, शाश्री, -रन्त वीथी २९, ९, १४, दाश्री, -रन्तम् पाण २, १४, २३, वीण २, १, १३१.
हन्धी- म्नी या ११, ३६
हरति-> ष्ति-कर्मन्^०- मंज या ४, २६
हरमाण-> ष्ण वान^०- नः या ५, १५
हरस(वया)^०- ष्तिर आपश्री २, १, १, ६, ६, ७x४, वीश्री, अप ४८, १८, २०, ६वृद ५, १७, २१, निष १, १७, २, १३, या ४, १९^१, १^१, -ष्रिस्ता आपश्री १५, ३, ७^०, वीथी ९ ३ २०^०, भाश्री ११, ३, २^०, वैश्री १३, ४. २^०, हिथी २४, १, १७^०, आनिण, -रसी या ४, १९, -ष्रिसे आपश्री १७, १३, ५, वीथी ९ ६ ८^०, माश्री, -रासि या ४, १९
ष्हारस्-व(र>)श्री^०- ल्य अप ४८, ७६, निष १, १३
ष्हारस् विद्- वी वीश्री ७ १३ २७, काण्ट १, ०१, ४
ष्हारा शय,ष्य^०- ष्यम् वाधुश्री ४, ५९^१. १०^०, -या^० माश्री २, २, १, ३९, वैश्री १४, ३ ८, शिथी ७, ४, ३२, -याम् आपश्री ११, ४, ५, वीथी ६, २४ ३, माश्री १२ ५ १६, १८
हरिव्यत्- ष्यति काश्री ११, १६,

-ष्यसु दाश्री १३, १, १, २१, १४, ३, १०, लाश्री ५ १, १, २, ३, ७, ९, -ष्यन् काश्री २, ६, ७
हर्तुम्> हर्तु-काम- ष्य अथ ७, १३
२हर्तु- पाव ५, १, १२९^१, -र्ता सु २०, ४, -र्तार जाण २, १५, ४, हिष २, ३, ३४
हर्त्रे- वा ५ १, १२९
हार- पावा ३, २, १
हारवित्वा काश्री ८, ९, १७
हारि- पाठ ४, १२५
हारिन्- री वा ५, २, ६९
हारि रर- न पावा ६, २, ५२
हार्य^०- ष्यम् वैष ५, ४ २८^१, शंष ३००^३
हृत,ता- न काश्री २३, ४, २१, -तम् काश्री ५, ३, २६, आपश्री २, ५, ८, जस ५ २९^१, वेज्जो १३, -ता वैश्री २०, ३५ ९, -ता वृदे ६, ८२, -तेषु वैश्री १५, ३० १५
हृत-सुकटा(ट अ)जव-वरर विद्- नर्ग^०- नव वाप ६८, ४, ३
हृत-सर्वस्व^०- स्वा वाप २५१
हृता(त-ब)वशेष- वे वाप १९ ३७
हृत्वा वाश्री २, ३, १५, शाथी
द्विपमाण,ता- ष अथाप ३, २, -जम् आपश्री ४, ५, २, ९ ५,

८, ६, ३, माथी, कौस् ७१, १२^०, -ष्वस्य आपश्री ५, २, ४, वैश्री १, ७ ७, -णा दाश्री १४, ४, २, लाश्री ५, ८, २, -णान् वीथी २२, १२ १८, दाश्री, -णानि दाश्री १५ १, १३, लाश्री ५, १, ११, -णाम् दाश्री १४, ४, ११, लाश्री ५ ८, ११, -णायाम् दाश्री १४, ३ १५, -णे आश्री ३, १२, १६, काश्री, -णेपु माश्री ४, १८, ५.
✓हृ(=✓ष्ट(षया ङ) > ङणि, षी^०- वाप ३, १, २७^१, -ष्वि अप ४८, १८, निष २, १३^०.
✓हृषीय पा ३, १, ७७, ष्वणीयवे अप ४८, १८^०, २६.
हृत्वं- पावश्री २, १, २८०
हृत्- वा ६, १, ६३, हृत् आपश्री १७, ५, १४^१, शिथी १२, ३, ११^१, अथ ३, १०, ४, ष्वसु वीथी ६, १५ २४, आपम १, ७, ११, आनिण १, ५, १: ५, या ९, ३३^०, ष्वद आपश्री १४, १६, १, वीथी, ष्वता भाश्री २ ५, ७^०, १०, ९, दाश्री, माश्री १, ६, ३, १८^०, ष्वदि आपश्री १०, १०, ३x४, भाश्री, ष्वदे आश्री ५, ६, २६, वाश्री ७, ५, १५, काश्री, या १०, ३५^०
हार्द- वा ५, १, १३०, ६, ३, ५०
ष्वहार्दि^०- ष्वि आपश्री ७, २६, १२^०, वीथी ४, १० १०,

a) पामि वैष १, २३७७ d द्र । b) वत । c) वैष १ द्र । d) पामि वैष १, २६४८ ० द्र ।
e) पामि वैष १, १४६६ ० द्र । f) = नदी । g) वैष १, २६२६ ७ द्र । h) पामि वैष १ हरिवाम्ना टि द ।
i) १ ९०२ d द्र । j) नस > द्रा > कस । k) ह्रीं इति पाठ ३ वनि शेष (तु सत्सर्वं टि) ।
l) भा रोषणे सञ्जयां न वृत्ति । m) ष्वि इति ङा । n) या मोषे वृत्ति । o) पामि वैष २, ३४, प्रणेन तैता १, २, १, २७ टि द । p) पामि वैष १ हार्दि मा ६, २१ टि द ।

२५ २० २५^३, भाभी, -दिंघ्
भाभी १,८, ६, ७^३, २, ४, १,
३९^३, बाभी १,६, ७, २४^३
१हार्त्-पा ६, ३, ५१

हृत्-को (< लो) क- पा ६, ३, ५१.

हृत् कण्ठ वाळु- (ग >) गा-
-गाभिः विष ६२, ९

हृत् कण्ठ मनस्- -गसा यासि २,
१९.

हृत् प्रदेश- रे वासि १, ५६

हृत्त्व(लु-अ)र्त्- स्वस^३ वा १४,
२५^३

हृदि-तल- लम् शप ५७, ४५^३

हृदि-स्थ- स्थ गैष १, १९, १३

हृदि शृङ्ग- -शृङ्ग आभी ५ १९,
५, -शृङ्गाम् श्रुवा ३, ८१

हृद्-गत- -कम् विष १, ३०

हृद्-(ग >) गा- -गाभिः शप २४,
वैष २, १०, १.

हृद्-भग सिन्धु(गु-अ)न्त- -न्ते
पा ७, ३, १९

हृद्- पा ४, ४, ९५, ६, ३ ५०,
-यम् वृदे ८, ३२, -यात्

आपथी १७, १८, १^३, -ये वप
१९^३, १, ४, -ये वप २१, ४,
१, ६, ५, ६८, ५, २२

हृत्वा(य अ)शृङ्ग-समान्वित्त-
-ने वप २१, ४, २

हृद् यु- युग्याम् पावा ६, ३ ८

हृद् रोग- पा ६, १, ५१, -^३गम्
आपथी ४, १५, १^३, भाभी ४,
११, १^३, हिथी ६, ४, १८, अक्ष
१ २२४

हृत् लास-, हृत् लेस- पा ६, ३,
५०

हृद्-(> हृदी-पा) पाग ४, १, ४१^३
हृद्य^३-पाठ ४, १००, पाग ५ १, १३०,

विदुः, -यम् भाभी ४, २०, १^३,
बाभी, बाग १, २१ ७^३, वीष्ट,

-यस्य आपथी ७, १२, ९, २४,
२, वाठथी, -यात् आपथी ५,

१८, २^३, भाभी, -यानि आपथी
५, १०, २^३, वीष्टी, हिष्ट १,

२४, ४^३, -याव भाभी १७,
१२, १^३, आपथी ६ २०, २^३,

या १०, ३५, -ये वीष्टी २,
१ ११^३, वीष्टी, आमिष्ट १,

१, ३ २३^३, ६, ३ ३०^३,
वीष्ट १, ४, १^३, गमाष्ट १, १६

६^३, १७ ८^३, हिष्ट १, ५, ११^३,
-यव आपथी ४ ५, २^३, वीष्टी,

-वै^३ आमिष्ट ३, ७, ३ २१,
वीष्टि २, २, २, हिष्टि १९ ८

हृदय गम, मा^३- मन् वैष १, २
५, -मा वीष्ट १, ५, १५, २,

१, २८, वृदे ४, ७२, -माभिः
वाष ३, ३१, आपथ १, १६, २,

विष १, ५, २

हृदय-(ग >) गा^३- गामि शप
२३

हृदय जिह्वा- -हे वीष्टी २० २९ ५

हृदय जिह्वा मसत्- क्षासि वीष्टी
१० १७ ६, १९ ४

हृदय देस- -नाम् आपथी ७ १८,
८, भाभी १, ५, ३, ७××, वाभी,

-वे आपथी २४ ११ १, हिथी,

-श्री आपथ ८, १०.

हृदय-नास- -श्री भाभी १३, ३, ३,
वाभी २५, ९, १०, भाभी ३, ५

१६

हृदय-पुण्डरीक- -कम् वैष २,
१८ २.

हृदय व-व- -वम् वैष ३, १४ ३

हृदय रमण- णम् वा २, १०

हृदय रोग- पा ६, ३, ५१.

हृदय वत् पावा ५, १, ११२

हृदय-व्यथा- धा आपथी १२, १०
हृदय शूल^३- -र हिथी ७, १, ७०,

१०, ५, ४५^३, द्राभी, -एत्
वाभी ३, ६, २३, ४, १२, ७,

भाभी ८, १२, ११, वाभी,
शुष १, ४११, -एत् वीष्टी

२०, ३१ १८, -ला आपथी
१४, ७, ४, भाभी ५, २, १२,

१८, हिथी २, ८, २६, १३, १,
२४, -लान् वाभी ३, २, ७,

८७, -लानाम् वीष्टी २३, १५
४१, २५ २४××, -लानि वीष्टी

१७, ३७ १२, -ले भाभी ७,
६, ८, वैताथी १०, २१, -लेन

आभी ६, १३, १६, भाभी ७,
२३, १, वाष्टी, -ले आपथी

१९, ४, ६, वीष्टी १७, ३८ ३,
वीष्टी ११, ६ ३.

हृदयशूल(ल अ)न्व, न्वा-
-न्त वीष्टी ६, ३२ १४, १०,

५६ १३××, -कम् भाभी १४,
१०, ८, वीष्टी २६ १३ २, १८

११××, -न्ता वाभी १८, २४,

d) पांसे वैष १ हृदि तै ३ २ ५, २ टि द । b) पांम वैष १ हृदि मा ६, २१ टि द c) वैष १ द ।

d) पांसे वैष १ ४ १, ८× १६ टि द । e) पांसे वैष १ हृद्येत्तु वी १, २२, १ टि द । f) वृ यासि । हृद-

इति भाषणा । g) पांसे वैष १ हृद्व्यानि वी ३ ८, ६ टि द । h) पांसे वैष १ हृद्व्यम् काठ ७, १२ टि द ।

i) अयम् इति ऋध्नि [ऋध्नि ५२, ८५] । j) पांसे वैष १ २०७१ ० द । k) = [उपचारात्] मन्-१ l) वृ
पावा ३ २, २८ । m) वैष १, २, १२ च द । n) = [उपचारात्] कर्ण-विशेष इति भाष्यम् ।

२५; -न्ताः शीघ्री ६, १, २१;
 -न्ते शीघ्री ५, ११, २६; १८, ६,
 २१.
 हृदय-शोक- पा ६, ३, ५१.
 हृदय-संसर्ग(गं-ई)प्सु-प्सुः श्वापथ
 ९, ४.
 हृदय-संमित, स्य- -ताम् शीघ्री १,
 १०, ७; -नौ आश्री १, १, २३.
 हृदय-स्थ- -स्यम् वीथी १८, १६ :
 ३६.
 हृदय-स्पर्शन- -नम् वैथ २, ६ : ५.
 हृदय-स्थ- -स्थः गोथ १, २,
 २९; गीथ १, ३८.
 हृदया(य-अ)न्त- -न्तेन वीथी
 २०, २६ : ३१.
 हृदया(य-अ)भ्यन्तर- -रे भासिथ
 २, ४, १० : ५.
 हृदयालु- पावा ५, २, १२२.
 हृद्व (य >) या-विष्- -विधः
 वीथी ८, १९ : १३; श्यामा ९, १७;
 शुभा ३, ९७; तैथा ३, २; -विधम्
 अत्रा ३, ४, १.
 हृद्व (य >) या-विन्, हृद्विक-,
 हृद्विन्- पावा ५, २, १२२.
 हृद्वे(य-इ)ष्क- -काम् वीथी १९,
 ७ : ४; १३; २४, ३३; ४४.
 हृद्वौ(य-औ)परा- -सेव शुभा ५,
 ४० १०.
 हृद्व्य- पा ६, ३, ५१.
 हृद्व्य, र्या- -र्याया कृमा १४,
 ४२; उम् ३, ५; -र्याय शुभा
 ४, १५ ३१.

हृद्विक- (> हृद्विक- वा.) पाठभो
 २, २, १०; पाग ४, १, १५ १०१.
 हृदी- हृद- द.
 हृद्य- हृद- द.
 हृदिधेनामन् शीघ्री १०, १४, ६;
 वीथी १२, ७ : ५३; आसिथ ३,
 ४, ४ : ५.
 ✓हृद् (वधा.) वाधा, भ्वा. पर.
 अतीक; दिवा. पर. तुष्टी, हृद्व्यति
 पाथ १, १६, २५; अत्रा ४८, २० १.
 हृध्वेत् वाध १०, २२.
 हृजह्वन्त कृमा २, ४८; शिथि
 ३३६.
 हृजह्वपाथ- -याः आश्री २, ११, ८;
 ८, १४, ४; वीथी ६, ३० : २४;
 भासिथ ३, ५, ७ : २५; वीथि.
 हृजाह्वपाथ- -जेन कृमा ९, ५१.
 हृज- पाग ३, १, १३ १; ५, २, ३६;
 -र्यः श्वापथ १, २३, ५; हिथ
 १, ६, १३; वृदे ५, ६६; -र्ये वा
 ३, २, ६८.
 हृज-जीरिका-कृत्वायकाल- -गेथु
 पावा १, ३, २१; ६, १, १३८.
 ✓हृज्वा पा ३, १, १३.
 हृज्वित- पा ५, २, ३६.
 हृज्वा- -याः जैथ १, २३ : ६१.
 हृज्वाग, पा- -याः तु ३०, ७;
 -पासः वा १०, ३० १३; -गे
 वा ९, ३९.
 हृज्विष्- पाठ ३, २९.
 हृज्वित- -ताः वृदे ३, १५३; -ताः
 वृदे ३, ८७.

हृज्वित- पा ७, २, २९; -ताः अथ
 ६८, ३, १३; -ताम् शिथि ३३७ १.
 हृज्- पाठ १, २३.
 हृज, हा- पा ७, २, २९; -हाः श्वापथ
 १, १३, ४; हिथ १, ४, १८;
 -हा वाथ १४, २४ १; वृदे ४,
 २; -हाः वृदे ७, १००.
 हृजा(ह-आ)मन्- -न्ता वृदे
 ४, ११५; ६, ६१.
 हृजीका- पाठ ४, १७.
 हृजीकेडा- -ताम् मिथ १, ५०; २८,
 ७७; -हृजम् आसिथ २, ५, ७ :
 १०; वीथ १, ११, ७, वैथ ३,
 १३ : ५; वीथ २, ५, २४.
 हृज्जि- (> हृज्जि-मन्-)
 हृज्जि- (> हृज्जि- वा.) पाग ४, १,
 १३६.
 हृज्ज्या- -का वाथि १, २, १२.
 हृज्जे शीघ्री १, ११, १; वीथी ३, २९;
 १३; हृ ३, ४४; भाथ १, १७ :
 १३ १०; हिथ १, २४, ६ १०; पाग १,
 १, ३७; ४, ५७.
 हे-हे, हे-हे पाग १, ४, ५७.
 हे-हे पि १, १२.
 ✓हेद् वाधा. कया. पर. भृज्ज्यादुमि
 ✓हेद् वाधा. भ्वा. श्वा. विवाधायात्,
 ✓हेद्
 ✓हेह् (लृप्) वधा. वाधा. भ्वा. पर.
 अनानदे, हेह्वते अथ ४८, १८;
 निथ २, १२.
 हेह्व(लृप्)व- -ता आश्री ६, १३,
 ७; शीघ्री ६, १०, ११; ८, ११,

a) वैप १ द.। b) हृद्य। c) पागे. वैप १ गा २५, ८ टि. द.। d) पागे. वैप १ हृद्व्याय वा १६, ४४ टि. द.। e) व्यप.। f) वृ. पागम.। g) वैप १ हृद्विधेनामन् टि. द.। h) पागे. वैप १ हृज्वागः वी ४, ३१, ३ टि. द.। i) वस.। j) वृ १९६९ B द.। k) = मूर्धना-विशेष-। l) वैप १, ५१० f द.। m) पागे. वृ १९१० p द.। n) = हिमाद्रोपलक्षणविक-। o) वृ. भाथडा.। ✓हेद्, ✓हेद् इति पाठि., ✓हेद् इति B.P.O.। p) पावा ७, ४, १ परामृष्टः द.। q) निथ. पाठः। r) भा. कोषे वृत्तिः।
 s) शीघ्री. शोथ. पाठः।

५, आपथी ४, ५, ५××; १४,
१५, १^६, द्विथी १५, ५, १^६, अथ
४८, १८^७; निय २, १३^७, -दसि
आमिन् २, १, ५, १

पहेड्य- -दयात्^७ आपथी ५, ५, ८,
द्वीथी २, १४ ७, द्विथी ३, २,
४४, -दयावि^७ माथी १, ५, १,
१६, बाथी १, ४, १, ६.

✓हेड् पापा. म्वा पर वेष्टने.

हेडस्- ✓हेड् (यथा) द.

✓हेड्^०

पहेति^०- पा ३, ३, १०४, -अथ आथी
२, १२, २, आपथी १७, २०,
१५, वीथी, -ति. आथी १४,
२१, ८, वीथी १, १ १४, माथी,
निय २, २०, -तिम् आपथी ५,
२, ४, कौम् १२८, ४, अथ, -०के
आमिन् २, ३, ५-१२, १३.

हेतिनामन्^०- -म अथ ३, २६

हेतु^०- पाठ १, ७३, पाप ४, २, ६०^६,
५, २, ६१, -अथ घुदे १, २८,
अथा १७, २५, -तु. आथी ८,
१४, १८, १२, १५, १२, द्विथी
२१, २, १६^६, अथ ३, १,
१२, पा १, ४, ५५^७, पावा
१, २, ७१, २, २, २१, मीत्
१, २, १६××, -तुना मासि १,
५, ५, १६, ११, -तुनि शथ
५, -तो वीथी २४, ७ ५,
७, ८, वैथी, -तो पा २, ३,
२३, ५, ३, २६, पाव १, १, ३७
हेडव- पा ५ २, ६१
हेडव- पा ४, २, ६०

हेतु तस्^० पावा ३, १, २६.

हेतु-वाप्टीर्यम(स्प-भा)तुलोमय-
-अथेपु पा ३, २, २०.

हेतु ए- -त्वात् मीत् ४, १, ३५; ७,
४, ११××, -त्वे मीत् १०, १, २५.

हेतु दर्शन- -नात् मीत् १, ३, ४.

हेतु निर्देश- -शा पावा ३, १, २६.

हेतु प्रयोग- -गे पा २, ३, २६.

हेतु^० भय- -ये पा १, ३, ६८; ६, १,
५६, ७, ३, ४०.

हेतु भूत-वाल- -संप्रतिशतव-
-त्वात् पावा ३, ३, १३३.

हेतु-मत्- -मति पा, पावा ३, १, २६,
पावा १, ४, ५४.

हेतुमद्-यथव- -नम् पावा ३,
१, ११.

हेतुमत्^० पावा १, ३, ६२, ३, १, ८९.

हेतु मनुष्य- -प्येभ्य पा ४, ३, ८१

हेतु-मात्र- -नम् अथ २, १, २,
मीत् ३, ३, ४५.

हेतु ध्रुत- -तम् अथ ७०, १२, ४.

हेतु-संज्ञा(ज्ञा-अ)प्रतिदि- -दिः
पावा १, ४, ५५

हेतु-सातर्प्य- -धर्मम् मीत् ४, १,
४८.

हेतु हेतुमत्- -मथो पा, पावा ३,
३, १५६

हेत्व(तु-अ)पदेश- -ते वा १, ४, ५

हेत्व(तु-अ)य- -यम् पावा १, ४,
८४

हेत्व(तु-अ)सामर्थ- -ने कथा ११, ४०
हेत्व(तु-अ)सामर्थ्य- -धर्मम् मीत्
४, १, ४१.

हेत्वा(तु आ)दि- -रिपु पावा ३, २,
१४.

१हेमन्^० > हेमन्- पावा ४, ३,
२३; -तो अथ १५, ४^१.

२हेमन्^० > पाठ ४, १४५, पाप
५, २, १००, -तम् अथ ४८,
७५^१, ९१; त्मप १, २; १२^१,
या १४, ११^१.

हेमन्^०- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

हेमन्- -मम् अथ ५, २, ५, १४,
१, ३.

०) पापे वैप १ हीक्यानि कठ ७, १२ टि. द । १) धा कोपि इति । २) पृ २८०९ ० द ।

d) वैप १ द । ३) दथ । ४) = अथ विशेष- (तु पापम) । ५) पाठ. ' होतु इति शोष' (तु त्म.

आपथी २, १६, ५ सस्त्रुं चोपपद च) । ६) = प्रपौषक-यत् । ७) = २हेमन्- । ८) कृत् हेमन्ती इति

पाठः १ दसि चोष । ९) = ३हेमन्- । १०) = १उदक- । ११) विकारार्थे अम् प्र (पा ४, ३, १५४) ।

१२) = पर्वत विशेष- । १३) = [तत्पदवर्ति-] अथ विशेष । १४) तु पापम ।

भाए १, १:१०, अप, शोध १५२,
 हेमन्त- पा ४, ३, २२,
 हेमन्तिक- पा ४, २, ६०; ६३,
 ३, २१, २२, -क आश्री ४, १२,
 १, -का. आश्री २०, २३, ११,
 वीश्री १५, ३८: १३, -कानि
 वीए २, १०, ६, -काय आश्री
 २, २७, ११, -के वीए २, १०, ६
 हेमन्त-श्रीधर-वर्षा- -वर्षासु १५३२०
 हेमन्त प्रत्यवरोहण- -णम् आण
 १९८, भाए २, २: १४.
 हेमन्त त्रिशिर- -रवो माश्री १, ४,
 १, २०^०, वाश्री १, १, ३, ११^०,
 आए, -रौ वीश्री ३, १८: १०^०,
 २४, २७: ९; माश्री १, ४, १,
 २७^०, वाश्री १, १, ३, ११^०, पा
 २, ४, २८
 हेमन्ता(न्त-आ)दि- -दौ वीए २,
 १०, ६
 हेमपा^० प्रम् १हेमन्- द.
 हेमा^० -मा माशि १, २, १०
 हेय- ✓हा (रगणे) द
 हेरम्ब^० - पाग ६, ३, १०८
 हिलतालोपमयनादि- -रिभि माशि
 १, ३, ७
 ✓हेय पाभा भ्वा आत्म क्यपते शब्दे.
 हेहय^० (> १हेहय- पा) पाग ४, १,
 ११२
 हेहे, हेहे १हे द
 है पाग १, १, ३७, ४, ५७

हे-पा पाग १, ४, ५७
 हे-हे- -हयो वा, पावा ८, २, ८५
 हेहे-प्रहण- -णम् पावा ८, २, ८५
 हेहे-प्रयोग- -गे वा, पावा ८, २,
 ८५
 हे-हे पाग १, ४, ५७
 हेसफायन- -दिसक- द
 हेतनाम-, 'मन्- हित- द
 हेतय-, 'शुक- प्रम् हेतु- द
 हेम- १हेमन्- द
 हेमगव^० -वा वीश्रीय २४: २
 हेमन- १हेमन्- द
 हेमवत- प्रम् १हेम- द
 हेमवर्चि^० -वे शुभ २, २७२.
 हेमहा^० आणश्री २१, १९, १९, २०,
 ४, हिश्री १६, ६, ४१, वाश्री ११,
 ३, १७, हेमहा^३ वाश्री १७, १४,
 १४, हेमहा^३ वीश्री १६, २३: १, ५,
 ८, ११, साश्री ४, ३, १८, हेमहा^३
 हेमहा^३ काश्री २३, ३, २५^१
 हेयङ्गवीन- हियङ्गु- द
 हेरम्ब-, 'व्यस्वप- प्रम् हिरम्ब- द
 हेहय- हेहय- द
 हेहय^० (> १हेहय-)
 हे^० आश्री ८, १३, ५ १०, ६, १३,
 वीश्री ३, २९ १३^५, हिश्री २१,
 २, ५५^५, वैश्री १७ १८, वाश्री,
 पाग १, ४, ५७, होइइ हिश्री
 १४ २, १५^१, होइ होइ होइ
 छम् ३ १० ३८^१, होवि वाश्री

१०, १३, २७^१, १६, १, २३^१,
 माश्री २, ३, ७, ३^१, होइवि
 आश्री २०, ६, १२^१
 ✓होह पाभा भ्वा आत्म क्यपते,
 पर गती
 होह, डा^० - पाग ४, १, ४^०, ५, १,
 १२२, १२४^०
 होह- पा ५, १, १२२
 होह- पा ५ १, १२४.
 ✓होह पावा ३, १, ११.
 होह ता-, होह लय-, होदिमन्- पा
 ५ १, १२२
 ✓होहाय पावा ३, १, ११

हो(ह>), दा^०-
 होतय-, होतय ✓हु(शान्) द
 होह^० - पाठ २, १५ पा ६, ४, ११,
 पाग २, २, ९, ४, ४, ४८^०,
 ५, १, १२९, १३०, -^०त
 आश्री १, ४, ८, ६, ५×५, १०,
 ८, ११^०, वाश्री १६, ४, ९^०,
 काश्री, -तरि वाश्री ५, ७, ४,
 आश्री १७, १२, १३, काश्री,
 -ता आश्री १, १, ४, ३,
 ६, २३, २५^०×५, ३, १०,
 ३१^०, वाश्री, आश्री ९
 १८, १२^०, २४, १३, ७^०,
 वाश्री ७, ४, १^०, वाश्री ३ ७,
 १०^०, वीए ३, १०, ६^०, वा
 १, ८, -तर आश्री १, ७,
 ७^०, वाश्री १०, १४-१८, ४,

a) वैप १ द. । b) सभा काठ ४, १४ हेमन्तस्य इति पाभे । c) सभा काठ ४, १४ हेमन्तस्य इति
 पाभे । d) = मूर्ध्ना विशेष- । e) = मत्पति- (ह पागम) । f) व्यप । ह पाका । रहे^० इति भावेडा
 प्रम् । g) व्यप । h) = विस्मयार्थे व्यप । i) परस्पर पाभे । j) पाभे वैप २, ३स हेव माश १३, ४,
 ३, २ टि द । k) पाभे वैप १ ते २६, ७, ३ टि द । l) जर्षे । m) प्वा- इति पाका प्रम् ।
 वात्सवचन- इति पागम । n) ह पागम । o) होवजमान- इति केचित् (ह पागम) । p) उपा.
 मा २३, २५ का २५, ६, ५ प्रम् इति पाभे । q) सभा वै १९, ४६, ४ विद्वाद् इति पाभे । r) पास
 पृ २६ टि द । s) होहा इति पाठ २ वनि शोध (ह प्र १, १४९, ५) । t) पृ ४७८ ह, टि द । u) सङ्ग
 पाभे वैप १ होत्रा ते २, ६, ७, २ टि द ।

होव-नदीन- -नात् मीत् ३ ७, ४६
 होवु विष्य- -ण्यम् काथी ८, ६,
 १९, -ण्ये काथी ६, ९, ९, ९,
 ९, ९
 होवु-नाम-प्रहण- -णम् काथी ३,
 २, १३
 होवुनामप्रहणा(ष अ)न्त-
 -तम् काथी २ ८, ७
 होवु पसी-यजमान- -नात् आथी
 १, १२ ३५
 होवु-वद- देषु आणित् ३, ४, १
 ३१, वीवि ३, ३, ९
 होवु पर- -येषु वीवि ३, ६, ९
 होवु-पोह-नेष्ट्(ष्ट-अ)प्रतीद् ब्राह्मणा
 षसि प्रशास्त्र- -नृण्यम् काथी
 ९ १३, २१
 होवु पोह नेष्ट्(ष्ट-अ)च्छावाक-
 -नागम् काथी ९ १३, २२
 होवु प्रत्यय- -य काथी १२, ३,
 १५
 होवु प्रथम- -मा आथी १४
 २२, १, वैथी २१, ८ ३, ९
 ६, द्विथी १५ ५ १५, -मात्
 आथी ३, ३, ४, वैथी १२, १
 ४, १६ २६ ११ द्विथी ९, ५
 ४३
 होवु प्रमुक्त- -सा माथी ३ ८ ४
 होवु प्रसर- -रे आथी ४, ९, ६
 द्विथी ६ २ २
 होवु प्रवाद- -तम् निम् २ ११
 १२
 होवु प्रैष- वाद काथी ३, १, १५,
 १८
 होवु प्रह्य मैत्रावरण- णा काथी
 १९ ३ १४

होवु प्रहो(दा-उ)ज्ञात्- वा काथी
 २०, २, २१.
 होवु प्रह- -क्ष काथी ९ १३, २४,
 -क्षम् वीथी २६, १४ ३
 होवु प्राग- -गम् द्विथी २१, २,
 ५८
 होवु-मैत्रावरण-प्रमृति-सप्त-
 -सागम् वैथी २१, १२ ५
 होवु मैत्रावरण ब्राह्मणाच्छसि पोह
 नेष्ट्(ष्ट-अ)च्छावाक- कानाम्
 वैताथी १८, १
 होवु मैत्रावरण ब्राह्मणाच्छस्य(वि-अ)
 छावाक-चमस-मुक्त-
 कथाम् वैथी १७, ४ ३
 होवु-यजमान^d(-> होवुयजमान-)
 होवु यत् काथी ९, ११, १७xx
 होवु वर्जम् आथी ६, ९, ७
 पूर्वहोवु-वर्ज- -ये आथी २४ ११,
 ६', ७', द्विथी २१, १ १'
 होवु-वर- -स वीथी १७, ४
 १३
 होवु विधान- -नेन आणित् ३ १०,
 ४ २६
 पूर्वहोवु-वृद्ध- -ये आथी १ ३ २७',
 का.ती १, ६ २', ३', वीथी ३
 २७ ३०'
 होवु पदन- -नम् आथी १, ३ ३०,
 काथी ३ १, १, आथी २, ११,
 १०, २४, १२, ११' वीथी
 -पूना^e आथी ३ १३, ५ मा.ती
 ३, १२, ३, द्विथी २ ६, ३०, -नात्
 आथी १, ३, ३१, ३ १, २०,
 शा.ती १ ६, ६, मा.ती, -नात्
 वाथी १ ६, ४, १८ -नात् आथी
 २४, १२ १०, -ने आथी २,

१७, १०' ४ १३, ७, माथी ५
 १०, १६, आथी, -ने आथी
 ३, १३, ५, माथी १, ३, ५ २६,
 द्विथी २, १, ३०
 होवुयदन-वक्ष्यना(न-अ)न्त-
 -ने वैथी ९, २ ११
 होवु पा(<सा)मत्- -ना द्राथी ७,
 ४, ८, काथी ३ ४, ७, ६, २, १८,
 निम्, -मणी निम् ८, १ १०,
 -माणि काथी ६, २, १४, ८, ५,
 २४, निम् ६, ५ ४
 होवु भस्त्रा- -ना आणित् ३, १०,
 १ १३ वीवि ३, ५, १
 होवु हृष्य- -ण्यो कप्र ३, ८, ७
 होव(तु अ)ण्यु- -ण्यो वैताथी
 ३६, ३३
 होवण्युं प्रवर- -रयो वैथी ६,
 ५ १५
 होवण्युं विकार- -रात् काथी
 ५, ५, २६
 होवण्युं विकार-ण्य- -रवात्
 मीत् २०, ७, १९
 होव(तु अ)ण्युं मष्टा(हा अ)नीद्
 यजमान- -ना काथी ४, ४, २३
 होव(तु अ)ण्युं मष्टा(प्र अ)नीद्-
 आ वैताथी ८, १५
 होव(तु अ)ण्युं(तु-उ)ज्ञात्- -नुमि
 वैथी १७, ६ १
 होव(तु अ)भित्तेयन- -नात् वैताथी
 ३६ ३१
 होव(तु-आ)वमन यज्ञोपवीत-
 शीच- -आनि आथी १, १२, १
 होव(तु-आ)दि- -द्वय वैथी १३,
 १४ ४, -दिभ्य वैताथी २२,
 ४xx, -दीनाम् अथ ३ ३७

a) वस । b) दस एष =होवु-वेद- । c) दस > पस > पत । d) १ २८११० द ।
 e) वैष २ ३ अ द । f) पामे वैष २, ३ अ होवुवैषे टि द । g) परस्पर पामे । h) वैष १ द ।
 i) पामे वैष १ होवुयदनम् धी ७ १०४, १ टि द ।
 वैष ४ प्र ८८

होवा(तु-वा)घात^०- नयो वाशी
१,८,८^०.

होत्रिय^०- नय आशी ५ १,१३१,
-य माशी २,२ ४,२३^०

होत्रोय^०- न. माशि १२१, -यम्
आपशी ११, १४, ४, ५, १२,
१८,६, २०, ३, वीथी, -नरुप
माशी २,३, ७, ७, -माय माशी
२,२,४, ५, -ये वाशी १८,६,
१०, आपशी ७, २६, ९ १४,
३१,४, १७, २१, ३^०, माशी,
हिथी १२,६,२६^०

होत्रोय पन्थि- ति माशी २,
३,६,१३

होय^०- नये माशी ६ २,६,२^०

होतोस() √हु (दाना^०) द

होत्र^०- पाठ ४ १६८, -नय आशी
१, ४ १०, वाशी १, ६, १४,
वाशी २३, ३, १, आपशी,
-नय आशी १,३,२१, २३,
२ १९, ८, वाशी, -नय आशी
१, ८, ७, वाशी १, १३, ३,
-नय आशी १, ९, ५^०, २,
१९,१०, वाशी १ १४,१५

होत्रोय^० प्रय होत- द

होना^०- न आशी ४,६ ३^०, वाशी
१, ५, २, ३४^०, हिथी ३, ७
६०^०, नय ४८ १५^०, १०२^०,
निय १, ११^०, ३ १०^०,
-या आशी ७ ११, २२^०, २

२, ५, नशाशी १, ११, १^०,
१०, ५, ४, आपशी, वीथी ३,
२९-२^०, वीथी ९-२७^०,
निय ३, ८ १४^०, अयाव ६,
१^०, -नय आशी १८,२४,
३४, वाशी ९, ११, ३^०,
नशाशी ८, १२:२७, २८,
-नय आशी ७,८,२, आपशी,
-नय आशी १०,२२,१२^०,
आय १, ३, १३^०, आनिय,
या ५ १, १३५ -नय
आशी १,८, ७, वाशी १,१३,
४x४, वाशी, -नय आशी
१, ९, ५, वाशी १, १४, १६,
वृदे १, ६५, -ने आशी १०,
१२,१५

होत्र क^०- का आशी ५,१०,१०,
१५ १३, ७,१, १५, ५, ८x४,
वाशी, आपशी २१, ११, ७^०,
-नय आशी ५, ६, १७,
वीथी २, २ १०, हिथी १०,
४,५७, -नय आशी १, २,
२६, ५ १६, १x४, वाशी,
आपशी १२,२३,४^०, वीथी,
-नय आशी १०, ३, १, १२
२०, १, वीथी, -कम्प वाशी
१३ १०, ४, आपशी १३,६,६,
हिथी

होत्रक चमत्- नयान् वीथी
२१ २० ८,२२

होयव-सदृश-चमत्-पुं-
प्रसयव- कम्प वीथी १६, ७:
१३

होत्रा चमत्-यत् वाशी ९, १२, १३

होत्रा पाजना^०- नेयु आपशी
२४,२,५^०.

नहोत्रा विद्^०- रिद्म माशी १
१,२,१७.

होत्रा-शंसिन्^०- नशा वाशी ५
१, ९, आपशी १०, १, १४^०,
३, १^०, माशी १०, १, १०^०.

माशी २, १, १, ४^०, -नशा
आपशी १०, ३, १, माशी २,
१, १, ४, -सी वीथी १२, २६:
२, १६, ८ २

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

होत्रा-शंसिन्- नी हिथी
१०, १, १०, -नय वीथी २, २-
११, ४ १५^०x४, माशी, अय
१, २३, १२^०

a) = (उपवत्त) मन्त्र विषय । इत्य पूष = होत्र- इति देववाक्त्रिह इत्य प्रसू च । b) पामे
पृ २८१२ टि । c) वैर १३ । d) = होत्र-यदन । परस्पर पामे । e) = होत्रिय- । चद प्र
शक्ति विषय । f) नोवार्थ पृ २६ अ द । g) = होत्र क । h) = यत् । i) = वात्- । j) पाव वैप १
होत्रा वै २६, ७ टि द । k) = श्रुतिव- । लहोत्राजा इति पाठ ? वनि शोध (हु मूके) । l) पामे
वैप १, १० १३ टि । m) पामे वैप २, ३३ होत्राणाम् माश ४, २, १, २९ टि द । n) = होत्र-क- । के अणो
एस । o) पामे पृ २८१२ म द । p) = होत्रपाल (हु अ) । q) पामे वैप २ ३३, होत्राशंसिन घना
२, १० टि द । r) व्यप । s) होली इति नया । t) = धर्म विषय । राका होलाके (इस) इति केचित् ।
u) पृ १८९३ अ द ।

होल- पाठ ४, १०५
 होत्र- प्रिक- होत्- द.
 होम्य- ✓हु (दाना) द.
 ✓हु पापा अदा आत्म अभनये >
 दुमान- ने होत् २५, २१.
 ✓हस्त पापा. भ्रा पर चलने,
 दिवाधरणो. > हस्त-
 हस्त- पा ३, १, १४०.
 ह्या हापुस्तन वैश्री १, ८, १३१, वैश्र
 १९:४
 ह्यस् () आश्री ७, ४, ४, आश्री.
 ह्य-नव- पा ४, २, १०५
 हास्तनी- न्याम् अत्रा ३, २, ५
 ह्य-रव- पा ४, २, १०५.
 हो-नोदोह- नृस्य पावा ५, २, २३
 होक् बह ६५: १०.
 ✓ह्य पापा भ्रा. पर. सवरणे.
 ह्य- पाग ४, १, ४१, ५, २, ६४, ६,
 २, ८५, -द वीश्री १०, २४:
 १५५, वैश्री १८, १५, ६५,
 तु १३, १, या १, ९५, -दम्
 वीश्री १५, ५ १३, २४ १०,
 वाधुश्री ३, १९, २, आष्ट २, ६,
 ९, कौश्र ५२, ५, -द्वो शारी
 १६, १८, १०, -दस्य अष्ट १,
 ३२, २, या ९, ७, -दाः तु
 २५, ५, वाच २२, १२, वीश्र,
 या १, ९१, -दाव माश्री २, १,
 २, १२, आष्ट १, ५, ५, काष्ट,
 -दाव कौश्र ६६, ६, -दे माश्री
 १२, २२, ११, माश्री १०, ४,
 ३, माश्री, -देस्य अत्रा २०,
 २१, -दो वीश्री १५, १ ५,
 २६, १० ८, ९, वाधुश्री ३,

६९: २१.
 हरी- पा ४, १, ५१
 हद-क- पा ५, २, ६४
 हद-मग- भेषु अथ ६५, १, २
 हद(ध्व) > रवा- न्या पापा ६,
 १, ८२
 हद(र-ध-पद-कर्म्म)- मम्
 अथ ६८, ३, १०.
 हरि(र >) वी- नी तु २५ ५
 हरो(द-१३)दक- नेन अथ १८,
 १, १२.
 ✓हत् ✓हत् टि द.
 ✓हस्त (यथा) पापा. भ्रा पर.
 शब्दे हस्तके वाद्य ७, ३०, निम्
 १, ७: ३१.
 हासयेत् वाच २७, २१, निप
 ४७, ३
 हस् > हस्मिन्- पा ५, १,
 १२२, ६, १५६
 हस्तिष्ठ, छा- पा ६, ४, १५६,
 -ष्ट आश्री १, ५, १०, माश्री
 १, ५, ८, माश्री, -ह्न् माश्री
 २, ३, १, १९, द्वित्री २, ८, २५,
 -ष्टा माश्री २, ३, २, २३
 हसीपत्- पा ६, ४, १५६, -व
 वीश्री ६ २४ १५, माश्री ११,
 ३, ६, द्वित्री २४, १, १८, -वस
 शारी ३, ३, ६, ३०, द्वित्री ९,
 ८, २१, आपञ्च २, ७, वाद्य,
 -वस ९ वस द्वित्री ९, ८, २२,
 २३, -वसि आश्री १५, ९,
 ९, माश्री ११, ९, १२, वैश्री,
 -वस माश्री ५, २, १२, १४,
 -वसम् वीश्री १७, १३

२, ३xx, -वान् वीश्री २६,
 २४: १५, निम् ८, ३, २४, १०,
 ४४, अत्रा १३, १४.
 हसीपत्नी- स्त्री आश्री २,
 १४, २१, माश्री ११, ५, १२, वैश्री
 १३, ७, ९, ११, अत्रा १, ४,
 ९, २, ८, १०३, अत्र, -सीम्
 माश्री ४, १, २०, -सीपु माश्री
 २, २, २, २८, -स्य. माश्री २,
 २, ३, २३
 हस्, रवा- पाठमो २, ३, १२४,
 पाग ५, १, १२२, -स्वः शारी
 १७, १०, ८, वीश्री २४, ७ ४, ६,
 माश्री १, २, ३, अथ, या ३, १३५,
 -स्वम् शारी १, २, १८, वीश्री
 २४, ७, ८, द्वित्री, पा १, ४, १०,
 -स्वस्य अथ ४८, ६७, निप ३,
 २, अत्रा, पा ६, १, ७१, ७, ३,
 १०८, पावा १, ४, १, -स्वा
 ह्म् २, १० १७, ११: ७,
 अत्र, -स्वा अत्र २, १, २, अत्र
 ६३, ४, ९, अत्रा, -स्वाद्य अत्रा
 ५, ११, अत्र ५ ५, ८, शीन ४,
 ३५, वेति, पा ६, १, १५१xx,
 पावा १, १, ६७, ६, १, १३१xx,
 -स्वात् शारी १०, ५ १२,
 -स्वानि अथ ५२, ११, ३,
 आशि ६, ९, -स्वात्मात् माशि
 ९, ५, -स्वाम् अत्रा १३, १२,
 माशि ९, ९, -स्वे अत्रा ४, ८४,
 उम् ६, ५, ८, २२, अत्रा, पा ५
 ३, ८६, -स्वेन अत्र ५८, ३, ८,
 अत्रा ३, १९, -स्वो हैषा
 १, ३१, अत्रा ३, १, १०^३

a) पा १, ४, ३४, ६, १, १८६ पराष्ट द । b) तु JFG । c) वैश्र पाठ । d) पाठ १ ✓हत्
 > कल्लव इति कोष [तु अ १०, ५३, ७ (तु ८ (वैश्र))] । e) वैश्र १ द । f) लज्जकार-भ्रान्त । g) तु
 २८०८ f द । h) पाठे वैश्र १ ह्त् औ ६, १-६, १ टि. द । i) कस > यल > वस । अपद- = अणाय ।
 j) या ३, १३ पराष्ट द । k) या अस्तीमावे उण । l) = गानत्री विशेष- ।

हास्- पा ५, १, १२२.
 हस्-न्ताय पा ६, १, ६१.
 हस् पा ६, १, १०६
 हस्-कण्ठो(ष्य-उ)प(धा>
 घ- -धम् शुभ्रा ७, ६.
 हस्-कर्म- -णम् नाशि २, ३,
 ५.
 हस्-मद- -णम् पावा ६, १,
 १०३; -णे शुभ्रा ३, ६३; पावा
 ३, १, ७०.
 हस्-भा- -ता ष्य ४७, ३, ५;
 पावा ३, २, ४९.
 हस्-न्व- -न्वम् पावा ३, १,
 ३९; ४, २, ९१५; -त्वाय
 पाय ३, ३; पावा ७, ४, ८३;
 -वे पावा ६, १, ८४; ७, ४, १३.
 हस्-वीर्य- -वे तैत्रा ३, ३; -वी
 ऋषा ३, ५५; उज् ८, २०; २१.
 हस्-वीर्य-पुट- -टानि नाशि
 ३, ७, १७.
 हस्-वीर्य-पुट- -ताः पा ३, २,
 २७; -ताः ष्य ४७, ३, ३; नाशि
 ८, ११; -तानि तैत्रा २४, ५.
 हस्-वीर्य-पुट-न्व- -न्वात्
 ऋषि ६, २.
 हस्-नदी- पा ७, १, ५४.
 हस्-न्नामन्- -म् वा ६, ३;
 -मानि निप ३, २, वा ३, १३.
 हस्-पूर्व- -वेः ऋषा २, २७,
 ४, २५; ६, १५; शुभ्रा ३, १५०;
 तैत्रा २, १८, -वेः उज् ७, १६,
 शुभ्रा ४, १०८.
 हस्-बलोप- -वै पावा ३, १,
 २७.
 हस्-बलोप- पावा ६, ४, २२.

हस्-रक्ष(पा>)ना- -ना
 पावा ३, ४, १.
 हस्-लोम- -नाः ष्य ६८, १,
 ४१.
 हस्-विधि-प्रतिषेध- -यः
 पात्रना ४, ७.
 हस्-व्यजन- -नाम्नाम् शुभ्रा
 ५, १३.
 हस्-रंज- -जाम् पावा ३, ४, १.
 हस्-सम-काल- -लः शुभ्रा ५, १.
 हस्-संशय- -याम् पावा ३,
 १, ६९
 हस्-स्नेह-परिप्लु- -ताः
 ष्य ५२, १४, ३.
 हस्(स्-ञ)क्ष- -रस्य निम्
 ३, १, २५.
 हस्(स्-ञ)दि- -दि पावा
 ७, ४, ८२; -दिः नाशि २, ४, २;
 -दियु पावा ३, ३, २७, ६, ४, ५६.
 हस्वादि-विधि- -यिः पावा
 ३, २, २८.
 हस्(स्-ञ)दि- -ने ऋषा
 ३, ५५; पा ३, १, ४८; पावा ६,
 ४, ८९; पाशवा ४, ४.
 हस्वादि-न्व- -न्वात् पावा
 ७, ३, ११३.
 हस्वा(स्-ञ)तुस्वार- >
 'र-र-ण- -वे नाशि ४, १३६.
 हस्वा(स्-ञ)तुस्वार- > 'र-
 न्यतिपद्म- -णम् ऋषा ३, ४१.
 हस्वा(स्-ञ)न्त- -न्तम् ऋषा
 ३, ३, २०; -न्तस्य पावा ६, ३,
 ६५, -न्ते पा ६, २, १७४.
 हस्वा(स्-ञ)मसिदि- -दिः
 पावा ६, ३, ६५

हस्वा(स्-ञ)भावा(व-ञ)र्ध-
 -र्धम् पावा ७, १, ७४.
 हस्वा(स्-ञ)र्ध- -र्धम् पावा ३,
 ३, ६.
 हस्वा(स्-ञ)र्ध-बाल- -लम्
 तैत्रा ३, ३७.
 हस्वा(स्-ञ)स- -रः ष्य
 ४७, १, १३.
 हस्वा(स्-ञ)द- -यम् ऋषा
 ५, ५१.
 हस्वा(स्-ञ)दा- -ताः नाशि
 ३, ३, १०.
 हस्वा(स्-ञ)प- -धम् ऋषा
 ३, ३, २३; -धस्य ऋषा ३, ३, ३;
 -धाः शीव ३, २७; -धानि
 ऋषा २, १, १५.
 हास- -सः पायु ३, १२; -से
 पायु ४४: ११.
 हास-वृद्धि- -द्धिम् ष्य ५०,
 १, २.
 हास-वृद्धि- -द्धी ष्यु ३९:
 १३.
 हासयित्वा ष्यु २, ५, ६.
 हासिन्- ष्यु. √हस्. द.
 √हाद्' पावा. ऋषा. ऋष्यके ऋष्ये.
 हाद्- पाय ५, २, ६४; -दः निष्
 ७, ११: ११.
 हाद्-ञ- पा ५, २, ६४.
 हादा(द-ञ)विराम- -ने पावा
 ३, ४, १०१.
 हादान- -न्म् ष्य ४८, ७५१.
 हादय- -यन् ष्य ३८, १.
 हाहुनि, नी- -नि वाश्वी ३,
 ५, १७१. -निम् शीव ३, ४०१;
 -नीनाम्' वाश्वी ३८, १३.

a) वस. । b) वस. > तुव. । c) कस. । d) सप्र. पाशि ३, ६४ लवावतुस्वारो इति पाथे. ।
 e) इष. । f) धत् > षस. । g) वस. वा वस. वा । h) मलो. कस. । i) वा ३, ९ पराच्छु. द. । j) = १४ दन्- ।
 k) वैव ३ द. । l) विप. (२४५).

७, हित्री १३, ५, १४, -नीम्य
तेषा ३, ७, -न्याः वीथी १२,
८, १३.
हादुनि, नीं ह(त) ता-
नाम् आपथी १०, १९, १, माथी
१०, १२, १०, हिथी १०, ३, ९
हादु(नि) नीं वृत् -वृत्तः
शश २, १७.
हियमाण- ✓ह द्र

✓ही पाथा. लु पर लजावाम्
ही- पावाग ३, ३, १०८, हिया
गु ३, ३, ष्हिये काथ १७, १,
माए २, १३, ६; कौव ७४, ९,
१८, वीथ ३, ९, ५, ष्हो वीथी
२, ५: ३, हिथी १४, ५, ३८;
वाप ३०, ८.
ही धृति- > विक- -कम्
अप ३, १, १३
ही मत्- नाम् आगप १, ३,
२०, वीथ १, २, २१, हिध.
हीन्- पा ८, २, ५६.
हीत्- पा ८, २, ५६
हीत्त मुख-> मुत्तिम्- ली
वीथी १७, ५० १५.
हीत्त-मुख- -ख वीथ ७०,
११.
हीत्ति- पावाग ३, ३, १०८

हीक, का- पाठ ३, ४८, -का वीथ
२, ११, ३१.
हीकु- पाठ ३, ८५
✓हीष् पाथा. भा पर. लजावाम्
✓हेष् पाथा भा. आत्म शब्दस्ते शब्दे.
✓हम् पाथा भा पर संवरणे
✓हप् पाथा तुग पर. आत्म वाचि.
✓हस् पाथा. भा. पर. शब्दे.
✓ह्राद् पाथा भा आत्म सुते शब्दको
शब्दे च, हावते ख ४८, ७१,
ष्ह्रादयति अप ४८, ७, ५७.
ह्रत्- ह्रवत्- पा ३, ४, १५.
ह्राद-> १ह्राद- पा. पाग ५,
३, ६५.
ह्रादव- नाम् अप ४८, ७, ५७.
शहा(वक) विक- -कंके वीथ
५, ५, ५, शेष ३४०
ह्रादिवा-ष(ह) वी- -० ष्ति
शेष ३४०
हीक, का- पाठ ३, ४८.
हीकु- पाठ ३, ८५
हकिष्() श्व ४८, १२१
✓हल् पाथा. भा पर. कलने, हिंसा-
संवरणयोश्च, क्लृप्ति आपथी १८,
७, १२.
हल- हल- पा ३, १, १४०.
हातव्य- प्रम् ✓द्वे द्र

✓हृष्(वया) पाथा. भा. पर.
वीथि संवरणे, ष्ह्राः वीथी
१, ३: १२, ४-३१, ५: ११,
गुमा १, १६८, तेषा ८, ८
ष्होद्वारम् वीथी ६, २५: ३.
जुहुराण- पाठ २, ११, -षण्म्
वीथी ६, ३० २७, ८, ५: १३.
हुत्- हुत्तवत्- पा ७, २, ३१.
ष्ह्राद्- -रः आपथी १५, १४, ६,
वैथी १३, १६: १३; हिथी २४,
६, ७, निप २, १३.
हरित- -रः माथी ४, ४, ३९१, पा
७, २, ३३.
ष्ह्राद्- -रम् आथी ४, ६, ३,
वाथी ५, ९, ६.
ह्राय- -वागात् निप १, १४.
✓हृष् पाथा. क्वा. पर हृत्ति.
✓हृष् पाथा. भा. उभ स्वर्णां शब्दे च,
हृवते क्वा १४, ५०, ष्हवन्ते
आथी ३, ७, ११, ८, ११, १;
वाथी, ष्हवामहे आथी २, १४,
३१, १८, ३, २०, ४४, आथी,
आपथी ८, १४, १८; २०, १८,
१, वीथी ३, १५, ८, माथी
८, १७, १, माथी १, ३, २,
२१, ५, १, ११, वाथी १,
३, ४, ३३, ७, ४, २६, वैथी

a) सपा कठ ४४, २ अनिय. इति पमि । b) विप (२अप) । c) भाथी पाठ । d) वैप १६ ।
e) पा ३, १, २९, ६, १, १९३, ७ ३, ३६ परावृष्ट द । f) ह पागम । g) पाठ । सपा ना ३६, २२ स्त्री
इति । h) हय । i) मत्वर्षिष्प ट् प्र उल. (पा ५, २, ११६) । j) सप । k) वैप २, ३३ द ।
l) = लज्जा- । m) सपा तेषा १, ३, १०, ६ ह्रीका इति पमि । n) ✓हृष् इत्यपि BFG । o) शब्द
इत्यपि BFG । p) वा १, ९ परावृष्ट द । q) पा वीथीमत्रने धृति । r) = १उदक । s) प्रविषे
शब्द । t) पा २, ४, ८० परावृष्ट द । u) ✓हृ (तु BFG), ✓हृ इति काचित् पाति. पाठ ।
v) पामे वैप १ निहृतम् मा ५, १७ टि द । w) = लोप- । x) पामे वैप १ इत्यपि मै ४, १,
१२ टि द । y) ह BFG । z) वा ३, १, ५३, ६, १, १५, ३२-३४, ७, ३, ३७ परावृष्ट द । a') पामे
वैप १ हवामहे क ८, ११, ६ टि द । b') पामे वैप १, ८०-१ ड द । c') पामे वैप १ हवामहे क २,
२३, १ टि द । d') पामे वैप १, २५३४ ह द । e') पामे वैप २, ३४ दवामहे तेषा ३, ७, ५,
१३ टि द ।

९ ६ १३^०, द्विती ५, ४,
 ४२^०, वेताथी १७, ७, ८^०,
 आपम १, १२, ३^०, कंठ
 १, १२, ६^०, शंख १, १९,
 ११^०, आभ्रिण ३, ११, ३ २०^०,
 गौमि २, ३, ११^०
 ण्द्वय तं वीथी ३, ३१. ६,
 १४, १४. २.
 ह्यवे निच ३, १४^०, ह्यति
 नाथी १५, ७, १०, १२, ४, २०,
 आपथी १, १९, ८, २, ४, २^०,
 वीथी, निच २, ८^०, ह्यन्वे
 कौत् १६, ३३, ह्यति वीथी
 ७, १ १३, २१^०, २२^० xx,
 ह्ये वा ११, २१, शैलि २५,
 ह्यमि आथी ७, ७, ३^०, वीथी
 २, १ ६^०, मथ, वा १२, २१,
 ह्यसै वाथी ३, ९२ ८,
 ण्द्वयताम् आपथी १२, २०,
 २, वेथे, ण्द्वयताम् आपथी
 १२, २०, २, वेथी १५,
 २३. ६, द्विथी, ण्द्वयताम्
 आपथी १२, २०, २, वेथी १५,
 २३ ६, द्विथी, ह्यन्त मथ ३,
 ३^०, ह्यव आपथी १२, ३,
 १^०, वीथी ८, १ ३, ११, ६
 ४, द्विथी ८, १, ४१^०, ह्येत्
 वा १०, १८, कौत् ८३, २२,

ह्येम वा १०, २८, १२, १४
 ह्येत् वाथी ४, १०३ १३^०
 ण्द्वये वाथी ७, १३, ७, १५, २, ५,
 १०, २८ xx, वीथी, ह्यन्त वा ५,
 १^०, ण्द्वयेम आथी २, १, २५^०,
 २०, ४, ३, ८, १^०, शीथी २,
 २, १४^०, ३, १८, १६, ६, ११,
 ८^०, आपम १, १४, १^०, २^०,
 वा ५, १५^०, वा १०, २८^०,
 १२, १४^०
 ण्द्वये वा १०, ३३, मथ २,
 २२, ह्यन्त वा ६, १, ८४
 ह्येत् वा ११, ३२, ह्येत् वृदे
 ३, ७७.
 ण्द्वयेमि आथी १, १०, ८,
 ७, ४, ३, शीथी, आपम १, १४,
 ५^०, वा ११, ३३^०, मथोवरी
 वा ५, २१^०
 जोह्ये^० - अ मथ २, २, १०^०
 ह्य, वा^० - वा ३, ३, ७५, - ण्द्वय
 आथी २, १५ ३१, ३, ७, १० xx,
 शीथी, - वा श्रुवा ७, ३०^०, - वा
 वेताथी ३८, ५^०, - ण्द्वयताम्
 आथी ७, १५, २, वा ५, १^०,
 - वेत्-वे वीथी २७, ६ ७^०,
 - ण्द्वये वाथी २, १६, १४, वीथी
 २, ८ ३०, वाथी ७, २८
 ४^० आथ २, १, ७, वीथि, १११, ११,

१८^०, १२, ४४^०, श्रुवा ३, १२९
 ण्द्वयताम्^० - न शीथी १८, ५, १^०,
 - नाच आपम १, ७, २
 ण्द्वयताम्^० - ममि शीथी २, २,
 ११, ३, ५, १
 ण्द्वय, वा^० - म्य शीथी १०, ६,
 ६^०, ११, १४, ६ xx, १८, १०, १^०,
 वीथी, वेताथी ३२, १०^०, - म्यम्
 वीथी १४, ५०, २, निच ६, ७
 ४०^०, - म्य आथी १, १०, ८,
 वीथी २, २८, ३
 ण्द्वयताम् - ना आपथी ५ १९, ४,
 द्विथी ३, ५, ५, वा १२, ३३^०
 ह्यत् - त वा ८, ८, - ते वा ८, २,
 ८४, १०७
 ह्यत् वत् - अति निच २ ११
 १३, - वन्ती माथी ५, १, ८,
 १५, १०, २१, ४७
 ह्यत् वती - ती आथी २,
 १४, १९, वीथी १४, ५०, २
 ण्द्वयताम् - ना वा १२, ३३.
 ह्यत् म्य - म्यस्य वा ७, २६
 ह्यत् - ताम् वा ७, १५
 ह्यत् - नम् वा ३, १७, १०, २,
 - ताम् वा ५, १, - नेषु वा
 ११, १८, १२, ४४
 ह्यत् श्रुत् - श्रुत् वा ६, २७
 ण्द्वय - वा ३, २

a) पामि वैप १, ८०१ B द । b) पामि वैप १, २७३८ T द । c) पामि वैप १ ह्यवामहे ऋ १०,
 १८४, ३ टि द । d) पामि वैप १ ६५७ ती द । e) पामि वैप १ वर्मति मे २, ५ १० टि द । f) धा
 अर्वाभा इति । g) पामि वैप १ ह्यति ते १, १, १२, १ टि द । h) धा अर्वे इति । i) ह्यति इति
 भा । j) पामि वैप २, ३२४ आ बहत तां १२, ५ टि द । k) पामि वैप १ ह्यवामहे वी ७, ६, २ टि द ।
 l) पामि वैप १ ह्यवामहे शी ७ ४१, १ टि द । m) पामि वैप १ ह्यवामहे शी ३ १६, १ टि द । n) पामि
 वैप १ ह्यवामहे शी ३, १६, २ टि द । o) पामि वैप १ जोह्येति अ ७, ४१, ५ टि द । p) वैप १ द ।
 q) पामि वैप २, ३२४ अत्रमान तेजा २, ७, १३, २ टि द । r) पामि वैप १ ह्यम् अ ८९०, १ टि द ।

वाग्नि मत्- अत्^०
 १ अग्नि मन्थन- प्रगीता^०
 *अग्नि मान- वावर^०
 अग्निभूता(त-आ)दि- द्यप वैप
 १, १७ : १२.
 अग्नि वर्य- समिधु^०
 अग्नि वेश- > आग्निवेश- हुष्ट^०,
 तुध्य^०, भरद्वाज^०
 अग्नि-ष्टोम- अग्नि^०, उक्थ^०, उषेष्टा-
 नाम^०, पुरस्ताद^०, वृष्ट^०xx
 अग्निष्टोम सामन्- अतुष्ट^०
 अग्निष्टोमा(म आ)ष्टोर्वासा(म-
 आ)दि- द्वीनाम् ऋष ४१, २,
 ११
 अग्नि ष्ट-> *अग्निष्ट(ष्ट अ)ग्नि-
 प्रज्ञात^०, निशिष्ट^०
 अग्नि प्वात्त- अत्^०, अग्नि-स्वयोग-
 अत्^०, अन्तारभ्य^०, अग्नि ससर्ग-
 अटत^०, *अग्नि-सावन- वरु^०,
 *अग्नि-स्पर्शन- स्नात^०
 अग्नि हवन- जप्य^०
 २ अग्नि होत्र- अन्वयाधिप^०, आधार^०,
 दिग्^०, १दर्श^०, १देव^०xx
 अग्निहोत्र द्रव्य- १वृषा^०
 अग्निहोत्र प्रवृत्ति- िीनि मीय
 ६, ५, ४३^०
 अग्निहोत्र हवणी- पवित्र^०, शर्त^०
 अग्निहोत्रिन्- प्रवर्षित^०
 अग्नी(मि-र)व- अन्वयु^०, प्रदन्^०,
 दाहाणाच्छवि^०, होतृ^०
 आग्नीध्र- धेव^०, सवत्^०,
 २सुप्रदत्त^०, १हनिर्भन^०, होतृ^०
 १*आग्नीध्रविष्णवनि
 वचन- सवत्^०

आग्नीध्र भाग- यवा^०
 आग्नीध्रीय- उत्तरवेदिक^०,
 चात्वापि^०, सवत्^०
 अग्नी(मि-र)व्यन- प्राणायाम^०
 १अ(मि-र)ग्नी-पोम- वा, पावा ८,
 ३, ८२^० [अ- वचन^०]
 अग्नीपोम प्रणवन- आग्नीध्रीय^०,
 हविर्धानप्रवर्तन^०
 अग्नीपोमीय- क्षणेष^०, ताना^०प^०
 अग्नेर् निधि^०- यि जैश्री २२ १०
 अग्नेर्निधि-सामन्- म जैश्रीय
 २५
 अग्नेर् विमोह- क वैश्री १९, ७ :
 ९^०, -कम्^० जैश्री १०, ५९
 १९
 अग्नेर्-वत्- नम् जैश्री २४ ५, ७,
 ८, जैश्रीका ६४, ७३ जैश्रीप
 १४, १५, दाश्री २, ४१, आश्री
 १, ६, ३८
 *अग्ने-धैर्य^०- *अग्नेर् वैश्री २२
 ६, जैश्रीक २१
 अग्नेर् सहस्रसाय- अयम् परश्री
 २४, ५ १०
 अग्नी/क>अग्नी करण- ४त्^०
 अग् वा(मि आ)चाल- पुनर्^०
 अग् वा(मि-ग्रा) धेव- अत्^०, दष्टि^०,
 पुनर्^०
 अन्वया(मि आ)घतन- प्रहायतन^०
 अन्-वासा-> *वा(श आ)प्र^०-
 अन्वयु(मि-उ)प्यात्- उक्थ^०, वीर्य-
 माली^०
 *वा यु(मि उ)दासन- १दर्भ^०
 अग् यु(मि-उ)पघात- दादस ज^०
 १अग् ग्रा- अन्वयात्^०, १अग्, अद्भुत्^०,

अग् तु^०, अद्भुत्^०, अद्भुत् सर्वन्^०xx
 अग् वरु () उच्छिष्ट^०, देववर^०,
 प्राङ्मुत्^०
 *अग्रत कृत- २वज्राव^०
 *अग्रत प्रवेच (न>) ना^०-
 -नाम् वैश्री १९ ६ ११२.
 *अग्र दिधिपु- अग्निनिमुच^०
 *अग्र देश- मन्वदेवा^०
 *अग्र पत्र- ४त्^०
 अग्र पत्रि (न-क) - २राग^०
 अग्रऽयन- १दर्श^०
 आग्रयण- अन्वयाधेव^०, निर्य
 होम^०, निरयम^०, ३यव^०xx
 आग्रयणे(अ-रु)धि- दर्शपूर्ण-
 मास^०
 *अग्र हस्त- अङ्घ्रित^०
 अग्र हायान(>)ण-> आग्रहायण-
 > अग्नी- नदी^०, धवणा^०,
 धावणी^०
 *अग्रा(प्र अ)हुवि- २रत्^०
 अग्रा(प्र-अ)य(न>)ण- ३रुप^०
 १अग्रापण- ण नाश्री ३, २,
 ३, ३१^० [अ- मु]
 अग्निम- अयज^०
 अग्ने दिधिपु^० पू- तस्तर^०
 अग्नेर्दिधिपु दिधिपु-पति-
 स्तन^०
 अग्रय- अद्भुत्^०, दिग्^०
 २अग्र-> २आग्रयण- १स्यु^०
 १अग्र प्रह^०-
 *२अ-प्रह^०- कारण^०
 अग्र प्रहण- कारण^०, २तदन्त^०, नाग-
 भेव^०, किञ्चिदिष्ट^०xx
 *अमु मू- अय^०

a) <अग्निर्भूतानाम् (वे ३, ४, ५ १)। b) अग्नीनिःस्ति वास १। c) भाष २, ३० १२ पाठ।
 d) पू ४४ वा ८३, ८०>अग्नि द्र। e) = साम विरेप-। f) सप्र अक <> अम् इति पाठे।
 g) पू ४८ 1b>० इ। h) वस। i) पू ५२ नाश्री ३, २, ३३> अग्नि द्र। j) पू ५२ अग्नि(मु)>
 अग्नि सोच। k) पू ५३ अग्नि, सवत्सकेन द्र। l) तस। m) पू ५३ अय>अग्नि द्र।
 वैप ४-प्र ८९

अच् > अघ- अम्^३ आपम १, ४,
७, आप १, १३, ६, पाए १,
५, ११, आपि १, ५, २: ५१,
हि १, १९, ७ [अ- अन्,
अण्, १३१०, दु स्तम, १पुर-
(छ>), सर्वे]

अघाम अमि^३

अ घोप-> *घो(प रज)म-पर^३-
*अघोस्^३ पावा ७, १, १, ८, ३, १
[अ मोस्, २१३]

अह् > अह^३- अह^३, १२०,
नि, १वाहु, अघा, श्रीकृत, संघ^३
अह-अरण- धर्मविभोग^३,
१विधान^३

*अह-ना- अन्^३

अहव- अहववादि^३

अहित- अण्, अहित^३ साहि,
परित रत्, रसुदा^३

अहुर- १३३, अहुरथ^३, अवांम^३,
धारा, पन्, पाता^३xx

*अहुर धर्म- साक्षात्^३

१अहकुस- ज्वाला, निह, पाठ,
सक्ति^३

*अह^३- (> साक्षात्-)
अह^३ परि^३

अह्ना, अह्नय परि (< रि)^३

अह्न- अहार, अहार, अति, अति,
अतिरिक्त^३, अधिन^३, अन् xx

*अह क्षत्र-धर्म नि-पूरे- अन्^३

*अह क्षत्र धर्म सम्यं नि-पूरे- १न^३

अह द- मुह^३

*अह-निधय-मूत्र^३

*अह-प्रत्यङ्ग- समारित^३

*अह-मार- अवाति^३

अह भूत- कर्मन्^३

*अह-एवम- अन्^३

*अह-नाग- प्रेक्षातागडव^३

अह विद्या- भद्रमाजीपूजन^३

*अह-येव- अन्^३

*अह-स्यु(ए>)ए- अन्^३

अह हीन- अन्^३

अह होम- मूलहोम^३

*अह(अ-उ)तिरिक्त- हीनात्^३

अहो(अ-उ)वाह- अण्^३

अहुर- परि^३

अह- अण्

*अह- अण्, अण्, अण्

अह्नार- अरि^३, आहवनीय^३,
निरा^३, अके^३, अशित xx

अह्नार क- भास्व^३

अह्नारस्- अरि^३, अगर्भन्, आदित्य^३,
अर्धसमपृष्टि^३, कण xx

अह्नारस्- अण् आभी १०, ७,
४, आभी १६, २, १२ [अ-
अ(अ) अरि^३, १अ^३,
यामि^३, निह^३, सुहि^३,
हिरव रस^३]

*अह्नारत्त गसिष्ठ- गोत्र^३

अह्नारसाम् (प्रयति-) हिधौ १७, २,
४५

अह्नु-> अह्नु ए- अण् यीपि ३,
१०, १३ [अ- अह्नुति^३, अन्,
अनातिना, इतरपति xx]

अह्नु-योग^३-

अह्गुरि- अवाच्, तिर्यन्, सु^३

अह्गुल- पाउद् ६, ४८ [अ-
अर्ध^३, अर्धपण^३, १अहन् xx]

अह्गुलि, ली- १अण्, अह्गुल xx

अह्गुलि-अनिधि^३-

*अह्गुलि पर्वा(ई-अ)अन- प्रणी-
ता^३

अह्गुल(लि-अ)प^३

अह् > अह्नि-> *अह्नि-
युग- संवाद्यमान^३

अह्, अण् अमि^३, अण्, अण्, अण्,
अमि^३, अण्, अण्, २३३, ३५,
तिह^३, तिरि^३, नि, परा^३, प्र^३,
प्रति^३, वि^३, अण्, अण्, अण्,
१अह, का- सर्वदि^३, अण्, अण्

अह- जातु^३, अण्, अण्- अण्,
अण्, अण्, अण्, अण्, १३३,
अण्, अण् xx

*अची- घृत^३, अण्, अण्

*अच- *अच- *अच- *अच,
अच्यमान- अचन्, अण्, अण्

*अच्यन- नात् या छ, ३

*अच्यन्- *आक- अण्,
अण्

*अच- *अच- *अच- तिरि^३

अचल- तालुप^३, २सर्त^३, १हि^३

अचापम्^३ यौधौ १५, १४ २, १९ ४.

*अचिन्तित्य- पति^३

अचित-> *ते (त उ)पचित-
-त्तम पाग २, १, ७२

अचिर- वि^३

अच्छ, च्छा

o) पागे वै १ परि ति २, ११, १ टि द । b) पृ ५५ (प उ) > यति शेष । c) पाग
< अण्-अण्- । d) पृ ५६ यति अण्-अण् द. । e) उप < अण् । f) पृ १०२३ यति अण्-अण् १
६ । g) पाग वै २ ३५ अण्-अण् साह १३, ४, २, ८ टि द । h) सण् १अण्-अण्-अण्-
अण्-अण् ३। य शेष । i) पृ ९१ अण्-अण्-अण्-अण् । j) < अण् । k) पृ ९० अण्-अण् यति शेष ।
l) पृ ९२ अण्-अण्-अण्-अण् यति शेष । m) वै १ द । n) स्वा- (स्वा-)-> अण्-अण् यति शेष ।
पृ ९१ टि. अण्-अण् ।

अच्छ√वद् धा १,४,६९.

अच्छा√वच् > अच्छा-वाक-

उद्दंशीय°, पयमान°, प्रतिदृष्ट°,
प्रस्तोतृ°, द्रष्टृ°××

अच्छावाक-चमस- ४स°

*अच्छावाक-वाद्-पावाक°

अच्छावाक-सामन्- आष्टा-

देष्टृ°, ब्रह्मसामन्°

अच्छावाकीय- नेष्टृ°

१अच्छा√वद्, अच्छावद् माथौ ६,
२,५,१८°.

*अच्छन्द°- उपाश्रय°

१अच्छिद्र, द्रा- द्रा आपथौ ५,
९,११° [°द्र- औपातुवाक्य°]

√अज् (वधा.) आ°, उदृ°, उदा°,
उप°, निरु°, प्र°, वि°, रामु°

*अज (वधा.)°- वातम्°

१अजल-, *अजनी- १अक्ष°, मन्द्र°

२अजल-, १अजिर- ६अक्ष°, १वात°,
३येन°××

*अजिरा (र-आ)दि- ६र°

*अजे, अज- मासे°; *३अज-
माशि- शिम्° माथौ ६,२,११°;

माथौ २, १०, ११° [°जि-
६अन्°, ५द°]

१अज,जा- जाम् हिथौ १७,२, ५२°
[°ज,जा- अजदृष्ट°××]

१अज- देखेव°

अज(क)>का->का-व- पावा
५, २,१०-९°.

अजिका- मर°

अज-वर्ज- ब्राह्मणार्था°

*अज-पशौदन- मन्त्रोक्त°

*अज-पाल- तद्वर°, स्तेन°

*अज-विक्रियन्- तद्वर°

अज-शब्द->अजशब्दी->शब्दत्र

(ही-अ) प्यसो-देवता°->
°श्व- -रयम् अथ ४,३७

अजा(व-अ)दि->*अजावि(-ठ)-
बहु°

४अज-√अज् (वरि.) द.

अजगन्ध°, अजगर- मूषा°

अ-अप- कुण्डाशिन°, अ-अपती,
न्ती°-

अजमीठ- पुलीठ°

आजमीठ- -ठ वीथीप्र २१:
३°.

अजमीठ-यत् वीथीप्र २१: ४°.

अ-अल°- १अल°; अ-अल- ४°

अ-आलत्->°ती- ६र°

*अ-जालपाद्- मरुत°; अजित-
१शत°

१अजिन- अरमन्°, उदृ°, उप°,
उपवीत°, शौरम°, वापाय°,
२कुण्ड°, ३व्यमृग°, ४व्यारकरत°,
उरुद°, ४सर°, १अज°, गन्ध°,
गर्दभ°, गो°, घोर°, १अस्त°,
स्वन्°××

अ-जू°-, अ-ज्ञान- अविचारपरि-
माण°, १काम°, ज्ञान°

अज्य, अज्य,अया-√अज्(परि.)द
√अज् (वधा) पापा. चुरा. उम.

भाषार्थे, अनन्तित्त्वे ३, ९,
अजन्तित्त्वे ५, ४१ [अणु°]

अजुवि°, अमि°, उप°, मि°, परि°,
प्रति°, मणु°, अणमि°, अमाणु°

२अ(कत)>अता- -वताम् कौष्ट ३,
२, २ [°क, ता- अजाधीर°,
अन्°, अज°, अणेष°, ××]

*अवि- वि°; *५अज्°- अमि°

*अज्य; अज्य, अया-; अज्यमान-;
अक्षत्-; *अक्षन्ती->°न्त्य
(नी-अ) वैक्षण-अग्निमुखो°

अजल- अष्टगुणित्पर्वण°, इष्टु°××

अजयिरा, अजलि, की-२अवसान°,
१उदक°, १एक°, १कृत°, धीर°××

*अजल- क्षि°; *अजलि-पुट-
१कृत°

अजस- अण°, आकलीय°

अजस°-, अजि- इथीच°, वृत्तिरा°,
दन्त°, १रोरित°, *अजित-

√अद् परि°

*अट्टाल°- गोपुर°, प्रासाद°, १मयूर°

*अट्टालक°- इन्द्रवील°, तोरण°, छार°

√अणु (वधा.)>१अणु- अति°,
६र°, परम°

१भागव- चतुर्द्विष्ट°, द्विष्ट°

अविष्ट- सुदृतीय°, नर्षिष्ठ°

अणु√मू > अणु-भाव-
१दर्शन°, माता°, शब्द°

√अणु(भाषणे) >अण-> १अण
(कृत)- पावाय ६, ३, ४१°
[°ण- अमिन्°, १अणु°××]

अण-ज- अश्रय°

अणक- पाप°
३अणु->२अणव->*अणाय-

०) पृ ६६ माथौ ६, २, ५, २९ > वनि. द । ०) वध. उप. भाष. । ०) पामे. केव १, १७६८
द. । ०) भाव. विप. प्रय । ०) पामे पृ ७९० द. द. । ०) पाठः २ अज इति शोधः (ह. वधा. आपथौ
२२,६,७) । ०) पृ ६९ ग. मेष्टम् । ०) व. पागम ४२६ । ०) पृ ७० अजशब्दी अथ ४, ३७, पृ २८२ अस्तोदे°
इति मेष्टम् । ०) पृ ७१ अज-व° > वनि. शोध । ०) पृ ७१ वनि. शोध । ०) पृ ७२ वीथीप्र २०:
३; ४ > गक. वनि. शोध । ०) व. १ । ०) पृ ७४ अ° > वनि. शोध । ०) भाष. । ०) धा. युक्तमात्रे
वृत्ति । ०) = अज्ञातिता- । ०) पृ ७८ पावाय ६, ३, ४१ > वनि. शोध ।

ति>भागवतपरा(ति-अ)दि-
प्रातिपदिक°

*४अणु->अणव्य-, भागवत- पा
५, २, ४

*५अणु- मियद्गु°

अणुऋ, का- ऋणि°, देवता°, शीर्ष°

✓अत् अमि°, अत्र°, शम्°

*अतित-, *अतिथि- थि इप्राप्त
इ, १।१° [थि-इत्, आचर्य°°,
१देव°, देवता°, विहृ°°x°]

१आतिथेय- देव°

१आतिथ्य, ध्या- प्रह°, दीक्ष-

धीया°, पशु°, प्राणणीय°

*अतिवि ग(>)भी- सोगम

यज्ञी°

*अतिथ्य(धि-त्र)पनोद- इत्युत्°

*अतमी- यधी°

अतस->अतसी- कुण्मन्°

अति १त्र°°, इत्°, सु°

अति ✓काञ् > अ(ति) > श्री-काश-

इत्°, दिक्षु°, इत्°

अति-कृच्छ- कृच्छ°, *अति कृष्ण-

अत्°

अति ✓क्रम् > अति-क्रम- अत्°, शत्रु-

नक्षत्र°, काल°, चोदित°°x°

अति क्रमण- अत्°, नियम°, भाया°,

सीमा°, अतिप्रसथी- तद्°

अति मय अत्°, अति वा-त-

परिरा°, अति श्रमव्-, *अति-

चिरमिपत्-अत्°

*अति-हूर मृदु- १न°

*अति ✓क्षर > अति-क्षरवत्- अत्°

अति ✓गम् > *अति ग- नास्त्र°

अति गम- निदापवात्°

अति ✓अद् > अति प्राज्ञ- अत्°

अपथी १८, २, १।१° [°ह- अति°,
अत्°, वृष्ट्य°]

अतिप्राज्ञ-वा- तस्य° [°त्र-
ऐत्°]

अति-रच्छन्दस्- अतिजगती°°x°

अति जगती- अष्टि°, मावती°°x°

२अति-जागत- अतिनाम्नर°, दि°,

पर°, पुरस्°, पुरोवाहत्°°x°

*अति तीक्ष्ण- १न°

२अतिथि- मित्र°

अति दान- महादान°

अति ✓द्विष् > अति-द्वेष- इत्°,

इत्थ°, इत्थवात्°, आह्वारत्°°x°

अति-दूर- अत्°

अति ✓दृष्ट > *अति दृष्ट- अत्°

अति-दरय, दया- अत्°

अति-धृति- अतिजगती°, मुदिञ्°

अति ✓नी > *अति तप- १काल°

*अति-नयव्- अत्°

*अति-नयन- २दक्षिणा°

अति नीच, चा- इत्°, १न°

अति ✓पत्(गलै) > अति-पाव- अत्°,

१रुज°

अति ✓पद् > अति पत्ति- अतिहोत्र°,

१उपाय°, १पाल°, निवा°°x°

अति-पद्- १काल°

अति ✓पू > अति पवित- सोम°

*अति-पवित्र- पवित्र°

अति-पूत- सोम°

*अति-पृथु- अत्°

अति प्र ✓णी(<नी) > १अतिप्र-

णीत्- अत्°

*२अति प्रणी(ता) > त- -तेषु माथी

१, ८, ९, २६।

*१अतिप्रत्याहृत- अत्°

अति प्र ✓दा > अतिप्र-दान-

२उपासन°

अति-श्रेय- अन्वयात्°, अयंयज्ञीक°,

हारिपोजन°

*अति ✓प्लु > अति-प्लुत- ३व°

अति वृहन्मुखी- १न°

*अति-भोग- अत्°

अति ✓मुच् > अ(ति) > श्री मोक्ष-

अतिमात्°

अति ✓सृज् > *अति मर्षेण- दृष्ट-

इत्°, *अति-रक्त- ३रका°

अति-रात्र- अतिशोभ°, अतिरात्र°,

अत्°, अन्वतरत्त्°, अतिस्त्व°°x°

अति ✓रिच् > अति-रिक्त, चा-

१मह°, अत्°°x°, अतिरिक्(क्त-

अ)ङ्, अति-रिच्यमान- अत्°

अति-रेक- अणुत्कार°, कर्मत्°°x°

*अति-रोगिन्- वैश्यातिवत्°

*अति ✓लिह् > अति-लीड- लौढ°

अति ✓घद् > *अ-वृ(ति-उ)दय-अत्°

अति-चात- गीत°

अति ✓वृत् > *अति-वर्तिन्- समा-

ईमात्°

अति ✓वृष् > अति-वृद्ध- राजत्°

*अति-वृद्धि- स्तृतीयसन°

*अति-व्याघ- अद्°

अति ✓शस् > अति-शंसन- सोम°

*अति-शस्त- अत्°

अति-शम्भरी- अतिजगती°,

मावती°, चतुश्रदा°, परा°°x°

अति ✓शक् > *अति-शङ्क- अत्°

अति-शाकर- अतिजगत्°, शङ्क°

*अति-शिक्ष- मित्र°

अति ✓शिप् > अति-सि(ष्ट) > श-

अवरक्ष°

a) = अय रिरेप- । b) थि इति पाठः ? यनि. शोषः (वृ. सप्त. पाठ ३६, १४) । c) = देवी-
सिन्धेय । d) पनि पृ ५११ ख. ६ । e) कैप १ द । f) पृ ८६ यनि. मंत्र्यासिन्धेयः द. । g) प्रास. ।
h) पृ ८६ सप्त. १ अतिप्र-णी° > यनि. द. । i) = एमह-वितेप- । j) = सर्(नि)सिन्धेय- ।

अति-दोष-वना°, ४१°, सती गृहलोः
 अति/दशी > अति-शय- अर्थ°,
 उत्तरपद°, पूर्णपद°
 *अति-श्वेत- अर्°
 अति/व, सञ्ज् > अ(ति) > शी-
 पद्- निरयवसा°
 अति-सक्त- वैदपा°
 अति/सु > अति-स्वार- उर्दि°
 अति/सुज् > अति-संग- १दाभ°,
 शैव°; अति-सुष्ट, घा- अर्°
 अति/सृप् > *अति-सर्प- अर्°
 अति/सृष्टु > अति-स्वार्थ- कुष्ठ°
 अति/ह > अति-द्वय- अर्°
 अती(ति/इ)°, नृअति... एति° आभी
 १,३,२४; आभी २४, १२, ७,
 अती(ति-इ)त, हा- अर्°, इन्द्रिय°,
 १हाल°, हाधरु° *म°××
 अव्य(ति-अ)व-अवावरा°, १हाल°,
 दर्शरीर्णारा°, नाना°, पक्ष××
 *अ-त्वीवा- कपटी°
 अक्कील-> आक्कील- ००ल आभी
 १२, १२, ६४
 अत्य(ति-अ)क्षर-> *अत्यक्षरो
 (र-उ)पव- अर्°
 अत्य(ति-अ)न्त- अर्°, अन्त°
 *आवन्त-नत-, *स-गति- अर्°
 अत्यन्त-संयोग- १नाल°
 *आ-वन्तसंयोग(ग-अ)र्थ-
 अर्°
 अत्य(ति/स)शू(भोजने) > आवा
 (ति-आ)श- अर्°
 अत्य(ति शक्ति- अतिजगदी°, वाय-
 वी°, शक्ति°

अत्य(ति/अ)सू (दोषणे) > अत्य
 (ति-अ)सु- १अति°
 *अत्य(ति-आ)सम् संवत्पर°
 अत्या(ति-आ)/सु > *अत्या-कर-
 रत्नापा°
 अत्या(ति-आ) / क्रम् > *अत्य अर्°
 *अ-त्यागिन्- पतित°
 अत्या(ति-आ)/घा > *घान- अर्°
 अत्या(ति-आ) / ध्रु, १अत्याधावपति
 बोधी ४, ६ : १०.
 अत्यु(ति-उ)च- १न°
 अत्रि- राजन्य°, २रन्°××
 आश्रेय- -यः शोभी १०, ४, ४,
 बोधी; [°य- अरण°, ३हाल°,
 गौर°, नारद°, २नील°××]
 *अ-त्रि-चुत- लेव कीट २, १, २९.
 अ-त्वरमाण- पागवा ६, २, १६०°.
 अय, > था २उर्°
 अय-पर- १इहा°, औसार°
 *अय- > *र-यन्- १अर्°°, सागन्°°
 वापर्यण- -नी-प°
 √असू शक्ति°, नि°, वि°
 अश्रिन्-> °ण- १अति°
 *अद्- अल्प°, अहुत°, १आम°××,
 *अद्, दा- अर्°, उग्रहत°, चाण्डा-
 लाव°, १हृण°, धान्य°××
 अद्न- पथि°, स्वहृत्तुट° *स°
 *अद्नी- महाक°
 *अद्दुर्- १कल्प°, आम्-
 लपदी- दुर्°
 *अद्- अत°, अहुत°, हृण°××
 अद्- अहुत°, अराजोदक°, अर्°××
 अद्-काम- पशुकाय°

अद्-दान- सतत°
 अद्-धन-अपरिमित°, अद्-पान-
 पा°; *अद्-प्रकार-सर्व°
 अद्-प्रयोजन- -न. १°
 अद्-प्रादान- मनुजसंभवे°××
 अद्-भाव- > °य-प्राणागव°
 वीथ ३, ८, १६१°.
 *अद्-रस- २अधत°
 अद्(अ-अ)द्, दा- अर्°
 अद्(अ-अ)घ- गति°, पशु°,
 मङ्गलवेण°, अद्वाच-काम- शाम-
 काम°, दीर्घवाधि°, श्रुतिर्विम्°
 *आद्- नि°; आदिद्- वेपल°
 आदिनी- पुन°, सूयवस°
 १आद्य- अर्°
 अ-द्-व- अति°
 अ-द्-स-> *सा(ग-आ)दान- १अधु°
 १अ-दर्शन- -नम् पाठ २, ८, ३ [°य-
 सराजन्त°, अनिह°××]
 १अद्स- > अद्- > अद्मन् अर्°
 अद्मद् द्वि°
 आमुप्यायण- आचार्य°
 अ-दातृ- कन्या°
 अ-दाभ्य- १अंत्°, २आप्यायण°
 अ-दायिन्- भोजन°, अ दिति-अर्°,
 इम्°, अ-दीक्षित- २दीक्षित°
 अ-दीर्घ सूत्र- -गः शेष २५४
 अ-दूर- अन्वय°
 अ-दृष्ट- दृष्ट; *अदृष्ट-दोष-वाक-
 प्रसक्तम्- व्याख्यर्त°
 अ-दोष- अन्वयर्त°
 अद्गहमान- (> आद्गहमानि°-
 > नी-)

a) पाणे पृ ६२० इ । b) पृ ९४ आभी १२, १४, ६ > मनि. इ. । c) पृ ६७ पा ६२, १६० > यनि. इ. । d) वैप १, १५८० [इ. । e) अत्रिद्-> -त्रिणम् इत्युच्चारणम् । f) अति इति । g) भावे अद्मन् इ. उलं. (पाठ ४, १०९) । h) वैप १ इ. । i) मया. आपठ २, ६, ५ अन्वय इति पाणे । पृ १०० X वेपम् । j) उत्पद्य. अन्नमय-> यनि. इ. । k) पौरि पा. प्र. (पा ३, ३, ६०) । l) पृ १०४ मनि. संवत्सरेके: इ. । m) मस->रुप->तुष । n) पृ ६०१ b आगा°>यनि शोषः ।

अन्-अनुव्यक्त-पर°
 अन् अनुष्टुभ्-
 अन् अन्त- . तम् या १४, ३४°
 [०-त- ३ त°, १सम°]
 आम (य- १काम°
 अन् अन्तर,रा- अन् अत्रियैरशानु-
 लोम°, छन्दस°, तद्°, प्रति°xx
 शालन्तयै- अन्°, अन्वि°xx
 *आनन्त्यै कार्यै- सर्वदि°
 *आन तयै मास- वसै°
 अनन्तरा पुत्र- सर्वापुत्र°
 अन् अन्तर्हित- २स्वर°
 अन् अन्पत्वकर°-
 *अन् अपदेश्य- उद्योग°
 अन् अपमय°- देवता°
 *अन् अपनोद- १वात्°
 अन्-अपराध- १सर्वकाम°
 *अन् अपरोच- देश°
 *अन् अपयर्ग- आरम्भ°
 अन् अपाय- अर्थभार°
 अन् अभिधान- विशेष°
 अन् अभिसवन्ध- मशरान्द°
 अन् अभिहित- आनिहित°
 *अन् अमोप्या- मुख्य°
 *अन् अभ्युद्दष्ट- . दृष्ट्य पाथी २५
 ४, ४८°
 *अन् अय- १अय°
 अन् अर्थ- . रम् [°क- अर्थस्त्°]
 आमधन्व- अरात्रचन°, अथ
 धेप्रहृष्ट°, प्रदुर्धन°xx
 अन् अर्थविद्-°-

अन्-अर्था(र्षि अ)वेध°-
 अनल- १आनिल°, कथ्याल°,
 रमशान°, २सूर्य°
 २अन् अचकाश-> °श-त्व- विम-
 चि विशेषनिर्देश°
 अन् अवगम- २स्वर°
 अन्-अचलोभन- पुसवन°
 अन् अवसर्षण- अमितम्°
 अन्-अशन- ३अशन°, गीत°
 अन् अश्लील-दान°-
 अन् अष्टक°-
 अतस्- २अर्चने°, खम्°
 २अनहु(ख उ)ह- नहुह^क वध
 २२, १, वाह १५ २° [°ह-
 लु°, धेतु°, भूमि°]
 आनहुह शहृत्- ४स°
 *अनहुत् चर्मन्- २द्वैप°
 *अनहुद्-यज्ञ- आगोचन°
 *अनहुह^क- धेतु°
 *अनहुवाह- विवाह°, १सति°
 *अनस- महत्°
 अन् असूया- १तृण°, प्र-दु-वान°
 अन् आगत- पाथिद्वित°
 १अन् आगम- विषय°
 अन् आगत- गस माथि ४६°
 अन् आचार- नीलमद्या°, विधीति का°,
 मधुमद्य°
 अन्-आच्छादन- रति°
 अन्-आय- कृष्ण°, दीन°, १वात्° °
 अन्-आद- . अन् आद- आदर°
 अन् आदरण- . ?अनादान्तम्

अन्-आदेश- मन्°, २स्वर°
 १अनारि १माथ- अरात्रा°,
 अम्भृद्°
 *अनाद्य प्रातन- अनार्त्त°
 अन्-आपार°- के
 १अन् आमय- २तृणल°
 अ ना (मक->) मिका- अद्गुष्ट°,
 दपान्त°, मन्वमा°
 *अनामिका मत्स्यमा- १दक्षिण°
 अन् आरोग्य- परैव°
 अन् आर्जव- पैशुन्य°
 अन् आर्य- आर्य°
 अन् आवास°- बहुशक्ति°
 अन् आश-क- २प्राय°, २सृष्टु°,
 २शस्त्र°
 अन्-आसिष्य- १धोप°
 अन्-आहत- मूलधार°
 अन् आहित-> °द्वि(त अ)ग्नि-
 > *अनादितान्नि-भृति-
 प्रकरण°
 अन्-निघात- निघात°
 अन्-इच्छा(च्छा अ)र्थ°-
 अ नित्य त्या- नित्य°
 अ नित्य त्व- १देह°, पुरत्विया°,
 १विधि°
 *अ निभृष्ट- . एम् आपथो २८, १३,
 २१
 अ नियम-प्रत्यय°, आरत्रपरविप्रतिपिप°
 अ-नियोग- अन्°
 *अ निरोध- गर्भ°
 अ निर्देश- ५२°, ५४°

a) पृ १३० °अ->यनि द्र । b) पृ १३८ या १४, ३६->यनि द्र । c) तल >वस । पृ ११५
 यनि द्र । d) पृ १४० °b->दं द्र । e) 'दृष्ट्य दति पाठ ? यनि शोध (तु एष मास ११, १, ११,
 ५५५ च) । f) पृ १४४ °c->दं द्र । g) पृ १४४ °१->१ द्र । h) पृ १४४ यनि शोध । i) वि२ ।
 तल >वस । पृ १४८ सति-पृष्ठ यनि द्र । j) पृ १४८ °१->१ द्र । k) यनि पृ १०४२ वृ द्र ।
 l) समानान्त प्रत् प्र । m) पृ १५० माथि ४६ २->यनि द्र । n) पृ १५१ °१->१ द्र । o) पृ १५१
 °१->१ द्र । पृ १५१ पूर्वमाथि व टि नेष्टम् । p) पृ १५३ यनि शोध । q) तल उप <मा, ५/५स
 (निरोधे) । r) पृ १५८ वृ नेष्टम् ।

अ-निर्हृत-; अ-निवृत्ति- १३३,
 व्यसनं, स्थापय^०
 *अन्-इषुचारिन्- इषु^०
 अ-निष्की(र्णं)णी^०-
 रश्मन्-इष्ट- ११२^०
 अनिष्टा(ष्ट-मा)प्राथ- इरशनीय^०
 वानीर- केन शोभी ३, १५, ४ [क-
 इषु, चतुर्, पथोतिम्, त्रि°x x]
 *वानोर- प्रति^०
 अन्-ईक्ष्माण- ३^०
 अनु प्राथमी १८, ७, ४^०; द्विधौ ८,
 ८, ३३^०; ९, ५, ४३^०; १ १,
 ४, १० [नु- इष्ट^०]
 २अनु-
 अनु/कथ् > *अनु-कथन- कथित^०
 अनु/कम्प > अनु-कम्पा- रेक्ष^०
 अनु/काश > अ(नु)न्-काश-
 -नात् द्विधौ १४, ३, १८^०
 [का- धूष्, १वसु, धेन, ४व^०]
 अनु/कीर्ति > *अनु-कीर्तनं, नामधेय^०
 अनु-कूल, ला- इत्, यथा, नाचित^०
 *मानुवृत्त्य-इत्य (पि-०अ) इत्-
 दुर्वा-प्रवाल पुष्प-कृत- बलि-
 कर्मन्- अं शंष ३३५
 अनु/कृ > *अनु-कर- १३३^०
 अनु करण- अवारान्त^०, अ-यक^०,
 इत्; अनु-नात्- १३३^०
 *अनु कारिन्- तत्^०
 अनु-कृति- २अष्टा^०, आश्रम^०,
 १माहूत^०, प्रवृत्त^०, १वतिद्वर^०x x
 अनु/कृत् > *कृत्- २मवन^०
 अन्-उकृष्ट- अशुक्^०, उक्त^०
 अनु/कम् > १अनु-कम्- छन्द^०.

प्रज्ञपसादि^०, भाक्ति^०, वण^०
 अनु-कमनी- अनु-कम, छन्द^०
 *अनु-कान्ति- इयर्थमन्त्र^०, छन्द^०
 अनु/कुग् > अनु-कोश- १कोश^०
 अनु/कृत् > *कृत्- एतद्, निम्^०
 अनु-कृत्- -तृणा^०
 अनु/गच्छ, गम् > अनु-ग, गा-
 वत्, वीहलीयन्त^०, १अत् x x
 *आनुगा- तद्; अनु-गत, वा-
 ह्यवर्मा^०, गत^०, प्रवृत्त^० ह° x x
 *अनु-गत- सर्व^०; अनु-गमन-
 भाशौय^०, १उभार^०, गो° x x
 *अन्वाग्- उपवेश^०
 अनु/गृह्, ग्रह् > अनु-गृहीत-
 नित्य^०, हिरण्यवर्मा^०
 अनु-गृह्; अनु-ग्रह- आधी,
 १इवा^०, १उभार^०, १गुण° x x
 *अनुग्रह-रचन- प्रारण^०
 *अनु-ग्राह- सक्ति^०
 अनु/गी > अनु-गाव- श्लान्^०,
 १एव^०, मवत्^०
 *अनु-वक्षुस्- तद्^०
 अनु/चर् > अनु-चर- अत्, द्वि^०,
 प्रतिपद्^०, २मत्त^०, ४व^०
 अनुचरी- ४व^०
 *अनु-चरण- २अवमान^०, १प्रासन^०
 *अनु-चारिन्- इत्^०
 *अनु/चित्, अनु...चेतयः शप्रा
 ४, १३^०
 *अन्-उच्चारण- वृथादि...तिम्^०
 अन्-उच्छिष्ट- उच्छिष्ट^०
 अन्-उच्छ्वसत्- -सत् कौत् ४७,

३३^०.
 *अन्-उच्छ्वासन- २अश^०
 अनु/जन् > १अनु-जा, जा-पुंमा^०, सु^०
 *आनुजा- इत्^०
 अनु-जावर- > आनुजावर- हातोय^०,
 होन्^०
 अनु/जा > अनु-जा- शु^०
 अनु-जात, जा- अत्, १इत्° x x
 अनु-जान- स्तोत्र^०; अनु-ज्ञाप्य
 आश्रित् ३, १, २: २२; ११, ४:
 १७; कौत् २, ११, ४ x x x
 अनु/तद् > *अनु-तोद (वप्रा.)-
 चतुर्, नि^०
 अन्-उत्तर- २अपूर्व^०; अनु/दा
 (वने) > *अनु-दान- प्रयत्न^०
 अन्-उदात्त- कृत्, अर्धपूर्व^०,
 २आगम^०, उच्च^०, उदात्त x x
 अनुदात्त- २आगम^०, सर्वधातु^०
 १अन्-उदित- अन्स्तामित^०, अस्त-
 मित^०, १उदित^०
 अनु/दिश् > १अनु-देश- प्रत्यव-
 वत्, स्थानिकत्, स्थानिकत्^०
 अनु-देश- १इहोन्, स्थालीधर^०
 अनु-दिश- मन्^०
 अनु/दृश् > *अनु-दृशिन्- इत्^०
 अनु/दृ > *अनु-दृषण- विप्रमन्त्र^०
 अनु-दृष्य^०
 अनु/धन्. (अनु)दपन्वे साथ ३,
 १४^०.
 अनु-नासिक, का- इत्, उदात्त^०,
 निद्, ४व^०, सर्व^०
 आनुनासिक- २त्वर^०
 अनुनासिक- कृत्^०

a) पृ १६२ ग् > ० इ । b) पृ १६२ °क > यनि. इ । c) स्वार्थे प्र. । d) पृ १६५ इ इ ।
 e) पृ २४६ कृ इ । f) पृ १६६ यनि. संख्यासंकेतः इ । g) पृ १६७ प्राथमी २०, १५, १३ इति नेष्टम् ।
 h) पामे. पृ १३५२ a, d इ. । i) उप कारिन् प्र. । j) उप = इत्तर- । k) पृ १६८ -तृणा > -तृणा इति
 इ. । अन्वयं p अन्वेषितमिति । l) स्वार्थे अण् प्र । m) विप अनुकृति । n) पामे. पृ ७३३ इ इ. ।
 o) मलो. वच. । p) *सम् इति संज्ञाः शोषपत्रम् । q) पृ १७६ °य > यनि. इ. ।
 द्वेष ४-प्र-९०

१अनु पद-> आनुपदिब- पा ४,
४,३०

अन् उपपत्ति- अमरान्त°, अन्-
प्रयोग°, आभ्यासे°, अर्थ°xx

*अन्-उपपात- अर्थमाद°

१अनुपरिविधयति°

*अन् उपरोध- प्रकृति°, १४°

अन्-उपलब्धि- अर्थ°, वर्ष°

*अनु-पलाट- पलाट°

अन्-उपहत- अन्वयजाति°, अशनि-
बाहु°, स्वल्पहात°

अनु पातर- अतिपातक°

अन्-उपालम्भ- वर्गमाहा°

अनु-पूर्व,र्षा- अन्°, आधान°, उप-
धान°xx, आनुपूर्व- दीक्षा°,
आनुपूर्व- अन्°, कारणा°xx

आनुपूर्वी- १३हात°,
पश्चात्°, वही°

*आनुपूर्व सहिता- अन्°
*अनुपूर्व-व्य- रविधायकर्म°

अन्-उपेत- अन्वयतर°

अनु प्र/कृ>*अनुम किरण- तित°

अनु प्र/दा > अनुम दाम- नाद°,
११रा°, शवाक°, स्नेह°

अनु प्र/युज > अनुम योग- सर्ग°

अनु प्र/ह > *हरण- प्रस्तर°,
वपामाणी°

अनु/वप्, *व् > *ह, ह- द्विव°
अनु वन्व- १कृत°, च°, चोदना°,
देव°, पुष्प°, प्रत्याहार°, अन्°xx

*अनुवन्व (क)- अन्°, ४द°

*अनुवन्व-व- वृषण°

अनु। नू।(न्व)न्व्या- अवन्व°,
४म°, सोमन्वयणी°

अनु/वुप् > अनु-योषा- २५मं°
अनु-प्राक्षण°- ४४°

*अनु/भुञ् > *ह-> *क-दत्तवर्ष-
भुजा°

अनु/भू > *अनु भयन- महदु रा°,
शंति°ण्डु रा°, अनु भु- सर्व°

अनु-भूति->*अनुभूति-ज- अन्°

१अनु-मन्- -मन्त्र, -मन्त्री माश्री
५,२,१३,१

अनु म(र >)ती°-

अनु/मद् > *अनु मदित- विव°

अनु/मन् > *मन्, हा- १उभय°,
हरण°, २प्राज्ञण°, याज्ञि°,
सर्व°

अनु-मति- -नये° [१ति- अग्नि°]

अनु/मन्त्रि > १अनु-मन्त्रण-
अनुयाव° शास°, जप°xx

अनु/मा > अनु मान- तद्°

*अनु-मास- मास°

अनु/यज् > अनु। नू। याज-
अन्°, त्रि°, मन्°, फली°, प्रयाज°

अनुयाज प्रतिपेच- प्रकृत्युग्रह°

अनुयाज प्रसव- शा°, *जा-
(ज-अ)न्व,न्वा- प्रयाजादि°

अनु/या > अनु यात- १घन°, यात°

अनु याचिन्- तद्°

अनु/युज, *अनु-योज्य- दर्शपूर्ण-
मास°

१अनु। नू।-राध,धा- तिष्ण°,
रो द्वेषी°

अनु/रुप् > अनु रोध- १तदगुण°

१अनु रूप पा- अतिक्रम°, अन्वयाप°,
आज्यसौदीय°, उक्तास्ती
त्रिण°xx, *आनुकूप्य- १सा२°

*अनु लिङ्ग- ४४°

अनु/लिप्, म्, अनुलिम्पवान्,
*न्ताय°

अनु जिप्त,सा- गन्ध°, श्वेतचन्द्र°,
स्नात°

अनु लेपन- अक्षत°°, उष्णागु-
स्नान°, १गात्र°, गोमन्°xx

अनु-ले(वक >)पिना- (> *व-
पा।) [१वा- राज°]

*अनु लोभ- मन्त्र°, अनु-भोम-
धनियवैश्व°, प्रतिलोभ°, १दुर्भा°,
शूद्र°

आनुलोभ- हेत°

अनु/वच् > *वचन- १वाण्ड°,
निगद°, प्रैव°, प्रदान°, मप्रैव°xx

अनु वाह- कृपाव°, अन्वय°, अर्थ°,
अटव°, १चटव°, एकविंशति°xx

अनुवाक(क अ)पयमन्-
अनुवाको(क-उ)क्ता°

अनु वाच्य,व्या- अन्°, अरस्ये°,
२आरण्ये°, दुग्धा°, प्राप्ते°xx

अनु-वाचन- प्रैव°, राह°

अनु(नु-उ)न, का-, *अनु(नु-उ)
कि- अन्°

*अनु(नु ऊ)वाल- अन्°, हात°°,
दुर्°, शोत्रिय°

अनु(नु-उ)व्य,व्या- अरण्ये°

अनु/वद् > *पाद- २उदित°,
कर्मन्°xx, *अनु-वादिन्-
किदमाण°

*अनुवादिनी- अविधय°

अनु वपद्/कृ > *कार- अन्°,
वषट्कार°, ४व°, कृत- अन्°,
वपट्कार°, वपट्कार°

७) छ पृ १०९ । उपपत्तिव्यति ३ति अन्वयुं समाधत्ता । ८) उप = अन्वय- । ९) पृ १०९ यदि

शोष, h टि च नष्टम् (ह सशब्दं टि) । १०) पृ १०७ °न°>यति इ । ११) पृ १०८ इह वेपुचिह स्थलेषु
d दत्तस्वरयाने c इ । १२) पामे पृ १०९५ । इ । १३) पृ ११३ का->यति इ । १४) पृ ११४ अन्वयं
b वेष्टम् । १५) पृ ११४ को(क-अ)क्ता°>यति इ ।

अनुवात^१-
 अनुचिद् (लामे) > १चित्त-पश-
 श्च^२
 अनुविष्ठा(त-य)सि- श्च^३
 अनुवि/घा > १अनुवि-वि- दृष्ट^४
 अनुवि/रु > अनुवि-सुल^५- न्तम्
 द्विप्रौ ७,२,२७^६.
 अनु/घृत् > अनु-यतिन्- श्चार्थ^७पद^८,
 २धर्म^९, स्वधर्म^{१०}
 अनु-वृत्ति- आषद^{११}, १एकदेश^{१२}
 १अनु-न्य(वि/श्)ञ् > अनु-य
 (वि-२श्) ष- अर्^{१३}
 अनु-व्या/ह > १हार- अमिचार^{१४}
 १अनुव्या-हृह- अणुशाल^{१५}
 अनु/व्यञ् > अनु-व्यञ्वा- शय्या^{१६}
 १अनु-व्रत,ता- अर्^{१७}, तद्^{१८}
 अनु/शंस > अनु शंसन- योनि^{१९}
 अनु-शंस- अर्^{२०}
 अनु/दाद् > १शासन^{२१}- १साल^{२२}
 अनु/शास् > अनु-शासन- २वेद^{२३},
 शब्द^{२४}, अमितु^{२५}, वायु^{२६}
 अनु/पञ्ज > अनु-पञ्ज- पद^{२७},
 वपन^{२८}
 अनु/विच् > १अनु-विक- घृत्^{२९}
 १अनु/वृष् > १नुष्- अतिजायत^{३०},
 अर्^{३१}, श्चार्थ^{३२}, गामुरीxx
 वानुष्म- गार्हित^{३३}
 अनुष्ण(-ः)-वृहत्, श्चान्वीय^{३४}
 अनुष्ण-जादि- १पृष्^{३५}
 अनु/घ्रा > १घ्न- २धर्म^{३६}, १ध्व-
 महायज्ञ^{३७}, २यवानिहित^{३८},
 २मथोक्त^{३९}, सर्वधर्म^{४०}, २वधर्म^{४१},
 २स्तधर्म^{४२}

अनु-ष्टि- पूर्व^{४३}, वृद्धसंप्रदाय^{४४}
 अनु-सं/रम्, अनुसंभवंम् वीप्रौ
 ३,२७ : ३२^{४५}.
 अनु-सं/तन् > १अनुसं-वात-
 प्रसदेया^{४६}, प्राददेया^{४७}
 अनु/रु > १सरण- गार्हस्थ्य^{४८}, तीर्थ^{४९}
 १अनु-सार- दोष^{५०}, पुत्रनाय^{५१},
 १प्रसङ्ग^{५२}, शास्त्र^{५३}
 अनु-सारिन्- तीर्थ^{५४}, पद^{५५}, १सर्वात्^{५६}
 अनुसारिणी- १वत्^{५७}
 अनु-सु(त)>ता- १वत्^{५८}
 अनु/रुञ्ज > १अनु-सृज्ज- अर्^{५९}
 १अनु-सृजि(त)>ता- ३१ वत्^{६०}
 अनु/सृप् > १अनु-सर्पण- १वान^{६१}
 १अनुस्तोम- संदेश^{६२}
 अनु/स्वृ > १स्वार- १श्रौत^{६३},
 सञ्च^{६४}, कर्त्तव्य^{६५}, विद्वान्-
 लीय^{६६}xx
 अनु/ह > १हरण- प्रणोता^{६७}, सविस्-
 नित^{६८}
 अनुफ- अंत^{६९}, अर्ध^{७०}, यथा^{७१}
 अनुप- निद्^{७२}
 अन्-श्रुत- १अन्त^{७३}xx
 १अनुव-वाद- शाकोश^{७४}
 अ-नुशंस->तानुशंस- सत्^{७५}
 अन्-एक- १एक^{७६}
 १अनेक-पद^{७७}-
 १अनेक-पद^{७८}- एकवत्^{७९}
 अनेक-प्रत्यय- द्विवचन^{८०}
 अन्त,न्ता- न्तम् शाश्री १५, २६,
 ११^{८१} [न्त,न्ता- अद्वार^{८२},
 अकार^{८३}, अक्षर^{८४}, आर्ण^{८५}xx]
 अन्त-नात- प्रत्यय^{८६}

अन्त-लोप- आदिश्लो^{८७}
 १अन्त-स्व^{८८}; १अन्ति >
 १अन्तक- मृत्यु^{८९}
 अन्ते-यासिन्- अर्^{९०}, श्चार्थ^{९१},
 वलापिषे^{९२} न^{९३}, गोत्र^{९४}, तद्xx
 अन्तो(न्त-उ)दात्त- अर्^{९५}, श्चातु-
 दात्त^{९६}, समास^{९७}
 अन्तोदात्त-स्व- उत्तरपद^{९८}, उत्तु-
 य^{९९}, पूर्वपद^{१००}, १लोप^{१०१}, समास^{१०२}
 अन्त्य,भ्रया- अर्^{१०३}, अनेकाक्षर^{१०४},
 अर्थ^{१०५}, २आव^{१०६}, आर्ण^{१०७}xx
 १मान्य- न्यः वाश्री २,
 २,४,५^{१०८}.
 अन्त्य-ज,जा- पतित^{१०९}, श्लेच्छ^{११०},
 इतर^{१११}; अन्त्य-जाव- पतित^{११२}
 १अन्त्य-त्व- सर्व^{११३}
 १अन्त्य-स्वर- द्वितीया^{११४}
 अन्तम- ननुत्^{११५}
 अन्तरः(ः)^१ अश्री ३ : ४; २ : १२
 [१२ अर्^{११६}, १उदक^{११७}, शत्रु^{११८},
 चर्म^{११९}, विहार^{१२०}, संवत्सर^{१२१}, सदस्^{१२२},
 सार्धप्रथमयाम^{१२३}]
 अन्त-पाद्-, १अन्तर-अर्धचं-
 अर्^{१२४}
 १अन्तर-भागन- गयद्रुत^{१२५}xx^२
 अन्तर-आल- अनुलोम^{१२६}, अरलि^{१२७}xx
 अन्तर/ह > १अन्तर-लय- अर्^{१२८},
 देवता^{१२९}, पर्वत^{१३०}, यलस्^{१३१}
 अन्तर-आप- अर्^{१३२}
 अन्तर-द्वत्,ता- अर्^{१३३}, अन्तर^{१३४},
 उपवास^{१३५}, उताङ्गण^{१३६}, १मक्ष^{१३७},
 २अर्^{१३८}, सहास्यत्वार्थ^{१३९}
 अन्तर/ई, (अन्तर)ईयते उस् २,

a) पृ ११० संनिविष्टस्य २अनुवात- द्रवस्य १अनुवात- ह्यनेनाऽनेदः द. । b) वैदु. भाष्यम् अनुः
 द्रव. इति । c) पृ १६५ स्थलमिदं नेष्टम् । d) = उपधान- १ पा. धवशे रुतिः । e) सपा. वाठ ३८, १२
 अनु य आरभे इति, तत्रा ३, ७, ५, १ ह्यु माडवत इति च पामे. । f) वस. १^{१३}p>a द. । पृ २०९ वनि. संख्या-
 संकेत- द. । g) वस. । h) सपा. ऐत्रा ७, १८ अन्वान् इति पामे. । i) पृ २१२ वनि. संख्यासंकेतः द. ।
 j) पामे. पृ २२२ म द. ।

२४१.

अन्तर-उक्थय- १ साम्ना°
 *अन्तर/अन्व>अन्तर गार- प्र०°
 + १ अन्तर-गर्म-> 'मिन्- का°
 + २ अन्तर गर्म, भा°- अन्^१
 अन्तर-देव- दिन्°
 अन्तर/वा> 'दा, धान-१ उदर°,
 तपप्रव्य°, १ तुण°, १ प्रस्तर°°
 अन्तर घाय अन्°
 अन्तर हित, सा- अन्°, १ एव-
 पवित्र°, प्रामाभयन°, १ जीव°,
 १ दर्भ°, निर्णीत°, पवित्र°,
 व्यञ्जन°, १ सुवर्ण°, हिरण्य°
 *अन्तर/अन्व>अन्तर-भृ (तु)>
 सा- मन्त्र°, अन्तर /वषष्ट°,
 यम् > अन्तर याम- उदपांशु°
 अन्तर-यत्-> 'बल्लो- स्नात°
 अन्तर-यसु- गर्ग°, चातुर्मास्य-
 देवदेव°, छन्दोगपवमान°
 *अन्तर-वासरा- अन्°
 अन्तरा शय- पूतिगन्ध°
 *अन्तर पाद- प्रादेश°
 अन्त-स(रथ>)स्था°- स्वा
 वेताधी २४, १०°
 अन्त /स्वा > २ अन्त, रथ-
 पाग ४, २, १३८° [°स्थ-
 अन्तर°, १ उगमन्°, युग्म°, ४ स°,
 सार्ध°, सार°, ५°]
 अन्तरस्थ उर्ध्व-कार°-
 *अन्तरस्थीय- पाठ, २ १३८
 १ अन्तर रा°- अग्नि°, अन्वयुक्ति°, १

अतिरात्र°, अर्, १ अन्तरस्थ°××
 अन्तर्य- १ उभाव°
 *अन्तरा(र अ)ममन- पयनग°
 अन्तरा(रा म)-त°
 + /अन्तरि > २ अन्तर- विपा°
 *अन्तरण°- हनिन्°
 अन्तरित्त- --०° क्षरय पाथी ४, १०, १
 [°अ- अ१°, शिति°, वृषिरी°,
 वायु°]
 अन्तरिक्ष- १ दिव्य°, औग°, धे१°
 अन्तरिक्ष-सम°- मन्त्र° आशिष्ठ ३,
 १, २ • १७, २, २ : ६!
 *अन्तर्य°- > 'अन्त-रथ- अन्-
 प्राहिक°
 अन्ति > अन्ति क- अन्°, मोरुल°,
 दूर°, सप्, स्तोत्र°, रथ°
 अन्त- १ सुद°
 १ अन्त- अन्तु°, उदपातु°, निरु°,
 रथुल°
 *अन्तु°- १ उडा°
 १ अन्तुलिङ्गि°- पावाग ७, २, १
 /अन्तु पाथा पुरा उम उपमहारे
 १ अन्तु- न्य आपथी २०, ७, १८°
 [°अ- अन्°, १ अन्तु°, जनुपा°,
 जगन्°, जाति°, तरकर°××]
 अन्तु-कार- १ धूम°, नित्य°
 *अन्तु करण- पा ३, २, ५६
 *अन्तु भविष्णु-, अन्तु-भायुक्त-
 पा ३, २ ५७
 १ अन्तु-र- अन्ति°
 १ अन्तु-गु- > मान्धीगव- २ निषेध°, १

याः तत्र°, इयानारा°
 अन्य /अन् (परि) द.
 अन्य, न्या- न्यः। इधी ९, ५, ३६१°,
 लाधी १०, २, ६१°, वेताधी २४,
 ११° [°अ, न्या- अन्°××]
 *अन्तु-वारित-, *अन्तु गति°- अन्°
 अन्तु-तम- वृत्तुपादमं, अन्तु-
 सातनन्, १ अन्तु-ग- २ वम°
 अन्तुतर तत् () > °तः इत्-
 अन्तु-य- तत्°
 अन्तु-त्य- १ अन्तु°, अर्थ°××
 अन्तु-य-अन्- अन्°
 *अन्तु-देवत-व्येत- अन्°
 अन्तु-य(र्वि>)र्ग- अन्°
 *अन्तु प्रकृति°- अन्°
 अन्तु प्रयोजा- -न.°
 अन्तु-भार- अन्°
 *अन्तु-मुत्-पूरण- सनन°
 *अन्तु-युक्त- अन्तुधर°
 अन्तु-योग- अन्°
 अन्तु-वसता- विवस्ता°
 १ अन्तु(न्य-अ)र्ध- अन्°, स्मृति°°
 २ अन्तु(न्य अ)र्ध- > 'अन्-वर्धन-
 नामन्°
 १ अन्तु(न्य-उ)र्ध- > 'अन्-
 अन्तु(न्य-अ)र्ध- रतरेत°
 *अन्तु-य स्वर्तन- अन्तुपिण्ड°
 २ अन्तुतर-> अन्तुतरय- शान्-
 अन्तु(उ-अ)स- अन्तु°
 अन्तु(तु/अ)दन्तु > अन्तु(तु-२अ)र्ध-
 धृत°, नयनीत°

a) यत् । b) विप (उदयनीविधि-) । चस (तु सोमादिषु c च) । c) अन्तु, ईस्था इति पाठ १ ।
 d) पृ २१२ अथ निर्देश नेष्ट । e) पृ २२१ h ति नेष्टम् । f) पृ २२१ यति सत्पाताकैत द । g) पृ २२२
 परा(मो)>यति शोध । h) कर्त्तरि अण् प्र (तु पा ३, २, १) । १) पृ २०६ ० द । j) विप (अन्तु) ।
 k) पागे पृ २५४ ६ द । l) 'अ स' इति पाठ १ यति शोध (पृ २२३ k यदुक्त तनेष्टम् [तु पृ १२५ १ j) ।
 m) = कवि विशेष । n) वेप ई द । o) तु पागन । p) पागे पृ ८६ ० d द । q) पृ २२६ एतु
 स्वतेषु यति शोध । r) अन्तुः > ६ द । s) उम । t) पृ २२७ 'अन्तु- > यति शोध । u) पागे
 अन्तु ति द । पृ २२८ j नेष्टम् । v) पृ २२९ २ > १ द ।

अन्व(सु घ)व/सृज् > संग-
पदार्थ^{००}
अन्वये (सु-अव/इ) > अन्वय(व-
घ)प- निरतिजि^०
*अन्वये(व-र)न- तथा^०
अन्व(सु/घ)स/ (क्षेपणे) >
*अन्व(सु-अ)सन- हिरण्य^०
अन्वा(सु-आ) / स्या > *रचान-
सा^०
अन्वा(सु-अ) / चि > *चय- युगपद्^०
अन्वा(सु-आ) / दिज् > *धेय- अन्^०
अन्वा(सु-आ) / धा > *धा- अग्नि^०,
अह्न^०, अन्वा-धाय पुन^०
अन्वा-धि- निधि^०
अन्वा हि- > *ता(स-अ)मि- अन्^०
अन्वा(सु आ) / रभ > *रभ- अन्^०,
*विधि^०, एत्नी^०, स्वाती^०
*अन्वाद्य दशैर्पुंसात्^० - अन्^०
अन्वा-रभमाय- अन्^०
अन्वा-रभ्य अन्^०
अन्वा रभ- रभपति^०, यत्^०
अन्वा-रभमाण- १दान^०, पवमान^०
अन्वा-रभणीय- ४थ^०
*अन्वा-रभम् पत्नी^०
अन्वा(सु आ) / रुह > *रोहण- तद्^०
अन्वा(सु आ) / ह > अन्वा-हार्य-
आहवनीय^०
अन्वाहार्ये क- १पिण्ड^०
अन्वाहार्य-यवन- १गार्हपत्या^०
अन्व(सु/इ), *अन्विति आपो ३
५, १^०
अन्व(सु-अ)व- अन्^०, उह^०, २एत^०,
कारण^०, एहपति^०, तद्^० × ×
*अन्वयो(घ-उ) पाप- नाना^०

*अ-र(सु-अ)विन्- लोभ^०
अन्व(सु-इ)त, ता- अन्^०, अन्त^०,
अन्व^०, कर्म^०, तुलकीजवय^० × ×
अन्व(सु/इ)च्छ्, प् > *अन्वेपण-
सीता^०
अन्वी(सु/ई)त् > अन्वी (सु ई)
क्षण- एत^०, कृत्वावृत्^०
अन्वी(सु ई)क्षमाण- अन्^०
*अप् > *अप-अप आग्नि २, २, ५
८^० [अप्- इदम्^०, उदग्मन्^०,
शुधिरा^०, अनीता^०, यद्^० × ×]
*आप्य, प्या- १दिव्य^०
आप्यानाम् (मात्यस्तोम-)
शशौ १४, ५२, १^०.
*अपा-स्थान^० - ०न रिभ
१, ५६, अपा-नपृ^० - अन्^०
*अप् पति- अतत्^०
अप् पवित्र- कापाय^०
अप्सु > *अप्सु प्रवेश- ०न
शध २६५
अप्सु मत्^० - गत
आग्नि २, ६, २ १३
*अप् सेक- मार्जन^०
अप्-व- दवर^०, १नील^०,
सौर्य^०
अप्- कृच्छ्, चान्द्रायण^०,
त्रि^०, प्रति^०, *अप्-वि- एत^०
अप् अिण- > *आग्निष्वाप-
काश^०
*अव युक्त- अत्त^० अय
३, २६, १अअ- अन्^०, कृष्ण-
णन्^०, छिन्न^०, निर्^० अहन्^०,
रज्ज्^०, १वात^०
अअ(-रु)- विपस्त-

कल्प^०, *अअ-भार-स्तानित-
सह^०, अअ विकार- २अप^०
*अअ(अ-अ)रजात-
१जटावयन^०
१आप्- अतु^०
१अपस- गोदहृत्^०, गह^०, सु^०
अपस-व(र<)>री- अन्^०
२अपस- विद्वाना^०
अप्सु- > अस्तोर-याम- निरतिजि^०
अप्स- अन्^०
अप परि^०
अप रु- > *र-ऊ- पावा १, १, १०
अप/छ् > *अप-वार- शार^०
*अप-वारिन्- अक्षविद्या^०
*अप हन- १रुत^०, कृत्वा^०
*अप-किपा- अन्^०
अप/छ्पु > अप कर्प- उत्पथ^०,
१कुल^०, मल^०, याम्प^०
*अप कर्पण- एमत्^०, मल^०, मू-
पुरीय^०, लेपगन्ध^०
अप-कृष्ट- १तुल्य^०
अप/ऊम् > अप-दम- त्रि^०
अप-जमण- अन्^०
*अप-वामु(क<)>वा- अन्^०
अप क्षीयमाण^० -
अप/अच्छ्, रम् > *अप ग- अन्^०
अप गम- आशीय^०
*अप/सृ, ग् (शब्दे) > अप ग-
अभिग^०
अप्/चद् > अप चार- तद्^०, १२०^०,
पाशवा^०, गात्रा^०, यज्ञ^०, वृन्ध^०
*अपचार कालातिक्रमा(म-अ)
नतित निपथांस च्वाप-
समासा(घ-आ)दि- सोम^०

a) अय । b) पृ २३७ १द > ह द । c) उप वर्तते कृत् । d) पृ २३९ आग्नि २, २, ५०
> यनि द । e) पृ २४० आप्यानाम् इति नेष्टम् । f) = विष्णु- । g) पृ २४० यनि सोप ।
h) अप्सु, सत, इति हे श्चे द (हृ वीप २ ५ c) । पृ २४१ यनि नेष्टम् । i) पृ २४२ 'j' > i द । j) पृ २४३
यनि शब्दाकरोत् द । k) = कर्म- । l) 'अपा' इति वीथ । m) पृ २४६ आ-शी' > यनि द ।

अप०चि(पञ्जयाम्)>चि(उ>)
 ता-अन्, १अप-चिति- विधि^०
 अप०चि(चयने), अप०चिनोति^०
 जप चय- अद्गुलि^०, अर्थ^०, १ए३^०,
 १६व्य^०, पक्ष^०, १मक^०,
 १गहन^०, *अप चयन- १तुल^०
 २अप चिति- रयन्त^०
 अप०चिच्छद्>*अप च्छादयत्-अन्^०
 *अप-च्छादयमान-अन्^०
 अप-च्छेद- उत्रावृ^०, पक्षपत्र^०,
 पूर्वार^०
 अप०च्यु, अप०च्योद्वा^०
 अप०चि > *अप-ज्य-अन्^०
 अ पतित,ता- अमभिरस्त^०,अ-भोग्य^०
 *अपतित (वागिन्- अग्रहन्^०
 अपत्य- अन्^०, तद्^०, दर्शनीय^०xx
 *अपत्ता(त्य-त्र)धिकार-स्व-अन्^०
 अप०चिस्त>*अप-स्त-अपेत^०
 *अ-पथ्य-१मूल^०, १अ-यद्-
 *२अ पद्- > अपद कर्म^०- हन्^०
 अप०चिदिग्>*अप दिग्-अन्^०
 अप देख- १तुल^०, वर्तमान^०, हेतु^०
 *अप देख-अन्^०
 *अपचारय- पाषा, पाषाण ४, १,
 १०३^०
 अप०चिनी>अप-नय-अन्^०, आहव-
 नीय^०, १काल^०, तण्डुल^०xx
 अप नयन- २इष्टि^०, ईर्ष्या^०,
 देवनिर्मात्^०
 अप०चिनुद्>अप नुक्ति- १यद्^०,
 भाष^०, पापकर्मन्^०, २आतुल्य^०,
 रोग^०, सर्वपाप^०
 *अप-नुद्- अवज्ञाणी, शोष^०

अप मोद- अगि ४^०, निर्गति^०
 *अप-मोद- सपत्नी^०, सर्वपाप^०
 अप मोदन- धृत्वा^०, सर्वपाप^०
 अप०घ- > *अ दत्- वृट^०
 शप-पाठ- मात्रा^०
 अप०पात्र, प्रा- अमेव्य^०, शूद्र^०
 अप०वाद् (<र>) >अप-वाड^०-
 अप०वाष् >*अप-वाध- लक्ष्मन्^०,
 २रस्य^०
 अप०सृज् > *अप-सृष्टि- दुरित^०
 अ(प>)पा-मार्ग- अर्^०, ३चिदि^०,
 १वट^०, २शमी^०
 अप०यु, अप (यूवाताम्) आशु^०
 १४, २१, १^०
 २अ पर, रा- २अपर^० १३भर^०,
 उद्व^०, १२क्षिण^०xx
 अपर नाम- देवरात^०
 अपर पक्ष- अवाच्छन्^०, पूर्वपक्ष^०,
 मार्गरीर्षीपरमाप^०
 अपर-भान- तादृश^०
 अपर-रात्र- प्राग्रात्र^०
 अपर सन्धि^०- शीर्ष^०
 *अपर सौम्य- प्राध्याम्य^०
 अपरा(र-अ)दि- प्रखीता^०
 १अपरा(र-अ)न्त^०, २अपरा(र-अ)
 म्- १हविषान^०
 अपरा (र अ) धि- दक्षिणार्ध^०,
 द्वादशाह^०
 अपराध^०- शतावध^०
 अपरा(र-अ)रु- पूर्वदि^०, मध्य-
 दिन^०, मथाह^०, मद्य^०,
 हु^०
 आपराधिक^०-

आपराक्षिणी- पीरदिपी^०
 आपराक्षि^०-
 *अ-पर-दृष्ट- अयन्^०
 अ पराजित,ता- आशय^०, प्रावृण^०,
 ऐन्द्री^०, रवदयन^०
 अप०राष् > *राध- अन्^०, १पाल^०,
 दीवा^०, पुश्व^०, १विधि^०, र्ग^०,
 ही^०
 १अ-परिमाण- अर्थ^०
 अपरिमाण- रि^०
 अ-परिमित- ११५^०
 *अ परिलोप- आपार्य^०
 *अ परिचुत्ति- सर्वहोम^०
 अ परिबंधस्तर,रा- रान् द्विष २,
 ३, ३२^०
 *अ-परिसमाप्ति- नाभ^०
 अप०रष् > *रच्य- *रोध-
 रोच्य-अन्^०
 अप०रल् > अप-राषिद्- सर्व^०
 अप०रुद् > अप-राद्- अन्^०,
 आदेश^०, वत्तर्गा^०,
 तद्^०xx
 अप०विष् >अप-विद्- १वीर्य^०
 अप०रु (प्रतिपत्ते)>अप-वार्ध^०-
 अप०रु (आच्छादने) > *अ(रु>)
 पा वृत्- *वृत्-अन्^०
 अप०रुष् >अप-रुग्-अन्^०, आदि^०,
 इष्टि^०, १३भर^०, उद्व^०xx
 अप०रुम् >अप वृत्त-अन्^०
 *अप०रुष् >अप व्याध-अन्^०
 अप०रुष्(वि आ)रु > *अप०रुष्
 हरत्-अन्^०
 अप०रुष् > *अप वीत्- प्राचीन^०

a) पृ २४० b) नेष्टम् । b) पृ २४० *रुष्>रुष्ि द । c) पृ २४५ यनि सत्पराशक्तेतः द ।
 d) = अगाप- । e) वस । f) व्या । ह पागम । g) पृ २५१ यनि शोध- । h) पृ २५३ २०> ११
 द । i) पृ २५४ यनि सत्पराशक्तेत द । j) कप । k) पृ २५४ ० नेष्टम् । l) विप । तत्रमवीयत् उद्
 प्र उस (वा ४, ३, ११) । पृ २५४ ० इतिव पञ्जीयम् । m) पृ २५६ *रुष्ि>यनि शोध द ।
 n) परिष् इति पाठ १ यनि शोध (दु आपप २, १५, २ ३०th च) । o) पृ २५६ यनि शोधः ।

अ-पश्यत्- द्यन् आ०धौ १६, २,
६^०; ३, १३^०.
 १ अपश्यात्तन् अथ १, ३२.
 अप√अि > *अप-अय- प्रकृति^०
 *अप-अित- अन्^०
 अप√सद् > *अप-सद- १तापस^०,
 २ब्राह्मण^०
 अप-सलवि- वि^०
 २अप-सव्य- १कृत^०, ४स^०, १सव्य^०
 १ अपस्कन्दनः स्व १^०, १, ५^०.
 *अप√स्तु (आच्छादने) > अप-
 स्तरण- निरर्पति^०
 *अप-स्नान- १भरगन्^०
 *अप√स्फुर > *स्फुर(त् >) लो-
 अन्^०
 अप√सु > *अप-साय- १अग्रन्^०,
 १एक^०, ४द्वन्^०
 अप√हन्, अप-...अहि हिर १, १३,
 १३^०, (अप) हत > ता ऋषा
 ७, ५४^०.
 *१अप ह- क्लेश^०, तमस्^०
 अप-इत- धन्^०
 *अप-हनन- कर्^०, रक्षन्^०
 अप√हा(त्यागे) > *अप-दान-
 २अप^०
 अप√ह > *अप-ह- धन^०
 अप-हरण- एन्धन्^०, वापसि...
 र्णा^०, धोत्रद्वय^०, द्विशकैकशक^० × ×
 अप-दर्व- गणदण्ड^०; अप हार-
 उपघात^०, कुत्तर...व्य^०, धन^०,
 राजपुत्र^०, सर्व^०, सर्वधन^०, सर्वरत्न^०
 अप-हारक- अ-न^०, १कृत्^०, दीप^०,
 गन्^०, वाक्^०

*अप-हारण- २अप^०
 *अप-हारिन्- अजावि^०, उर^०,
 अर्पू^०, कव्य^०, काश्य, गन्ध × ×
 अपहारिणी- २भाग^०
 अप-हृत- अन्^०, चिर^०
 अप√हु > *अप-ह्व- आयन्त^०, प्रमाद^०
 अपा(प-भा)√हु > २अपा-करण-
 नखलोमन्^०, १वसन्^०; *कुर्व-
 अन्^०
 अपा(प-अ)घ- अपनोदन्^०
 अ पात्र- > *ग्री√हु > *ग्री-करण-
 १कृत^०
 *अपात्रीकरण-कर्मन्- १कृत^०
 अपा(प-अ)√दा > *दान- अन्^०
 १ अपादाय^० कौत् ३८, ८.
 अपा(प-अ)न् > १अपा(प-अ)न्-
 प्राण^०
 *दश-पान^० मृन्मय^०
 *अपामीव^० इन्द्रस्व^०
 *अपा(प-अ)र्ध- > अपार्ध-क^०-
 देवविद्वन्मुच्य^०
 *अपा(प-अ)√अि > *अपा-अयण-
 अरसविषया^०, वण्डप्राप्त^०
 *अपाधि- १अवस्^०, अपाध- धत^०
 अपा(प-अ)म् (क्षेपे) > *अपा(प-
 अ)म्- १शम्भा^०
 *अपा(प-अ)सन- तुण्माष्ट^०,
 वासस्^०
 अपि- उत^०
 अपि√धा > *धान- अन्^०, अर्पू^०,
 अमृत^०, अतन्वन्^०, ओष्ठ × ×
 अविधानी- २सोताण^०
 अपि हित- अन्^०, अर्पू^०

अपि√यत् > *अपि-यात^०- सु^०
 अपि√वन् > *आन्व- > *अव व(त्स
 >)स्ता^०- रसाया. वौ ७, ६,
 ३.
 *अपि-सोमपीथ- अन्^०
 अपी(पि-√इ), अन्व(पि-अ)य- एप-
 द्वती^०, पञ^०, पञ्चपुच्छ^०, पुच्छ^०,
 शिरस्^०
 अ-पीत- पीत^०; *अ-पुष्ट- १पुष्ट^०
 अ-पुरी(प >) पा- या द्विधौ ११,
 १, ३.
 *अ पुरोगय^०- वास. शशी ६२,
 १९, २१.
 अर्पू- अन्^०, अन् अशारि^० × ×
 *अर्पू-क >) का- ३स्वस्तिर^०
 *अर्पू कन्द-मूल-कल मांसा
 (प-आ)दि- सर्वभक्ष्य^०
 *अर्पूपा(प-अ)कृति^०- अन्^०
 २अ पूर्व, वी- पूर्व^०, २सवर्ण^०
 अपे(प-इ) > अपा(प-अ)व- अधि-
 कृण^०, अन्^०, १अपीवर्त^० × ×
 *अपा(प-अ)विन्- अन्^०
 अपे(प-इ)त- अन्^०, १तन्^०,
 १उष्टि^०, वेगकर्म^०, स्नातक^०
 *अपेहि > *दि-व्यटा^०, *दि-दि-
 तीया-, *दि प्रपसा-, *दि-
 धामिजा-, *दि-वामना-
 पा, पाग २, १, ७२.
 अपे(प-इ)द् > *अपे (प-इ)अ-
 माण- अन्^०
 अपे(प-इ)क्षा- अन्^०, अर्थ^०, ननु-
 र्दक्षी^०, तद्^०, १दुःख^०, पीन-
 प्रवृत्ति^०, प्रजन^०, वृत्ति^०

a) पश्यन् इति पाठ १ यति. शोध. (तु. ता. द्विधौ ११, १, १५) । b) वृ २६० आ०धौ १६, ३, १४ > यति. द. १ c) वृ २६१ यति. शोध. । d) अपस्कन्द इति शोध. (तु वे २, २४, १ न्दवतु इति पाठे.) । वृ २६१ < अप√स्कन् इति वेष्टम् । e) पाठे. वृ १७७७ म. द. । f) शोधार्थं शौ १, १३ [मृ. वृ ११३ द. । g) वृ २६५ यति. सं०शां० सं० द. । h) तस. । i) = सात-विशेषः । j) स्वर्धे क्त् प्र. । k) वेप १ द. । l) विप. > नाप. । मर. । m) वप. । n) अपोह कटा- इति पाठः ।

अपे(प-इ)क्षित-, अप(प-ई)क्षय
 अन्°
 अ-पेय,या- इराव°, १अनाच°,
 इभक्षय°°
 *अ-पोगवड- अन्ड°
 *अपो(प✓उ)म् > अपो(प-उ)इय-
 अन्°
 अपो(प✓क)हू (शापणे) > अपो(प-क)
 इ- अपेत°
 *अपो(प क)ह्व- मल°
 *अपो(प-क)ह्व- अन्°
 अपो(प-क)हन- ऋत्विक्°
 अपो(प-क)इ अन्°
 *अप्य-त- उभक्तम्°
 *अप्य अशाम् अशय ४, ११°
 *अप्युत्या(पि-उद्✓स्वा) > अप्युत्-
 धाय ह्रि १, ४, ४३°
 *अ प्रवयान- योग°
 *अ-प्रगल्भ- इन्°
 अ-प्रज्ञात- > *प्र यन्तु- ऋत्विक्°
 *अ प्रतिचार- यामयी°
 *अ प्रतिज्ञात- आपान°
 अ प्रतिपत्ति- इन्°
 अ-प्रतिपिद्ध- ऋत्विक्°
 अ प्रतिपेय- अन्वित°, उर्गम्°××
 अ प्रतीच- चम् माथी २, ५, १८°
 अ प्रत्यय-, *अ प्रभव- प्रभाथ°
 अ प्रयोग- उपपद्°, सामान्य°, विद्°
 अ प्रयोजक- -कम् भीत् ४, १, २५,
 *अ प्रवेक- मङ्गण°
 अ प्रसङ्ग- इ-तोदण°, वीप°, *रर°
 अ-प्रसिद्ध- पुण°
 अ प्रसिद्धि- कर्षणारण° ज्ञानन्तर्य°
 उ-सर्गलक्षणा°, उपसर्जन°××

अ प्राप्ति- अभासप्रसारण°, द्वितीया°
 अ-प्रिय- पिय°, रण°
 अ-प्रोक्षित- प्रोक्षित°
 अप्तरस्- श्लेषिण°, क्षेत्र°, गन्धर्वा°
 अ फल- फा°
 *अ वल- १वल°, २अ वल, ला°-
 *अ-यद्गच्- नित्य°
 *अ पाचक- उत्सर्ग°, कृत्स्न°
 *अपाचक-र- पुद्ग°
 *अविमस्ते अप ४८ २४°
 २अ ब्रह्मन्- > *अ ग-ता- -ताम्°
 वीधी १५, ४ ४, -तायै वीधी
 १५, ४ : २, ३
 अ-भक्त- १भक्त°
 अ-भक्ष्य-अभोज्य°, प्रभोज्यात्°, सकर°
 १अ-भय,या- वातुण्य°, एष्य°,
 १भय°, राजन्°, सर्ग°××
 अभय-कर- पावा ३, २, ४३,
 *अभय दक्षिणा- सर्वभूत°
 *अ भसद्- -सत् पा ६, २, १३८
 अ भाव- इकान्तोष्मप्रत्यय°, अह्नः°
 ज्ञा°, अन्नसंज्ञा°, अज्ञार°××
 अभि✓काश्र्, अभिचारक्षीति या
 १४, २१°
 *अभि✓काहृद् > *काहृद् इय इन्°
 अभि✓कृ > *अभि ररण- रवण°
 अभि कृति- २श्रुति°, वायत्री°,
 पुरस्°
 अभि✓कृन्द् > *अभि कृन्द्-वायो°
 अभि✓कम् > *अभि-कम- दि°, दि°,
 कभि क्रम्य अन्°
 अभि✓क्षिप् > *अभि-क्षित- अन्-
 लीट°
 अभि✓गच्छ,गम् > अभि-गामन-

इन्°, अस्तच्छात्र°, आर्यक्षी°, दैव-
 तीर्थ°, परदार°, प्रह्वेयया°, पितृव्य
 ...क्षी°, रजस्वला°, शहा°,
 योनिर्वलि°...क्षी°, सुप्रमत्त°,
 होम°, अभि-गमयत्- अन्°
 अभि-गामिन्- इयर°, गुह्यारा°,
 पक्षी°, सगोना°, यार्षी°
 अभि ✓गाह् > *अभि गाममान-
 -न धुरा ४, ६५, तैषा १२, ८.
 *अभि✓गुप् > *गुह-प्रह्वन्°, २वेद°
 अभि✓गुह् > *अभि गुर्न- प्रह्वन्°,
 रायम्°
 अभि✓गृह् > *हो(त)जा- सेना°
 अभि✓गै > अभि-गोत- कम्°
 अभि✓घृ > *अभि घार- उपस्तरण°,
 माप°
 अभि घारण- अचिधयण°, अन्°,
 अभिघान°, अन्वदान°××
 अभि-घारित,ता- इन्°, आरतीर्ण°,
 उपसर्गोर्ण°, रिम्°, सत्य°
 अभि-घार्य- इन्°
 अभि✓चर् > १अभि-चरण- >
 अभिचरणिक्- इन्°
 अभिचरणीय- छेदन°
 अभि-चाह्- अन्°
 अभि चार- १भैषज्य°, रक्ष्ण°,
 विद्वेषण°, शान्ति°
 अभिचारिक- राजकर्मन्°,
 शान्तिव°
 अभि✓चद् > *अभि च्यादन्-
 तुवर्ण°
 अभि✓जन् > अभि-जन- विद्या°
 *अभि जनन- श्रुता°
 अभि✓जप > *अभि-जप्त- अष्ट-

०) तथा माथी ३, १, २४ अप्यगात् इति पाठे । पृ ४०५ e नेष्टम् । *गाम् इति अस्त्वन्तो शोध ३ ।
 १) पाठे पृ १६११ ई । २) पाठे पृ ४५६ ० । ३) *अम् इति पाठ १ वनि शोध । ४) पृ २७७
 १४ > १ । ५) पृ २८३ यनि संरगासकेत ६ । ६) मल्ल इति पाठ २ वनि शोध (तु वाधुयी ३,
 ५१ : ३, वैशु उच्यन्स्वी) । ७) पृ २८८ या १४, ३० > एति ६ । ८) = मण्डन ।

सहस्र^०, अभि√जि > *अभि-
 जयन्- स्यात्^०
 १ अभिमित्र- चतुर्विंशत्^०, मिथजित^०,
 सर्वजित^०, *जित- अन्^०, *जिति-
 सर्व^०, अभि√घ्रा > *अभि-
 ज्ञ- सदगुणमानान्तर^०, अभि
 ज्ञान- शील^०
 अभि√ज्वल् > *ज्वल्-
 अभि√तप् > *अभि ताप- प्रीति^०
 अभि√दह् > *दह- अघे हिषी
 १५, ६, २३^० [*घ- अन्^०]
 अभिसु- चार^०, अभि√ष्टुत् >
 *घोष पुनर्^०
 अभि√दुह् > *दोह- राजर्^०
 अभि√धा > २ अभिधा- उमय
 स्वरित^०, पादरुत^०, आधिहत^०
 अभिधान- अन्^०, १ अवनयत्^०,
 इनेवार्थ^० xx, अभिधान र-
 चोदना^०, अभिधानी- १ अर्थ^०
 अभिधायाक- १ गुण^०, ६२३^०
 *अभिधायिद्- ७ गु^०, लप्रसपर-
 क्त^०, अभिधायि र- संश्लेषवा^०
 अभिधेद्- अने अत्रम् ८^० [*घ-
 १२३^०] अभिधि, १, १- अन्^०,
 इदन्तभक्त^०, तद्^०, पुनर्^०,
 *आद्य^०, सप त^०
 अभिहित र- प्रकृति^०
 अभि√घ्रात् (गती) > *घ्रात्- अन्^०
 अभि√धू > *धून्- अन्^०
 *अभि√धृ > *घ्राण- ७ गु^०
 *अभि√धस > *ध २६६- अन्^०
 अभिनि√घा > *घान- १ नासिक्य^०
 अभिनिहित- ध्रुप^०, -जात्य^०
 *अभि√निद् > अभि निन्दित-

-उत्स या १०, ४२,
 अभिनि√मुच् > *मुत्- २ सूर्य^०
 *अभिनि√स्तुप् > *स्तुत्- २ सूर्य^०
 *अभि नि√यम् > *यम्- १ चात्^०
 *अभि निर√मुच् > *मुन्- २ सूर्य^०
 अभिनिर्√वप् > *अभिनिर्-व
 (त >) ता- अन्^०
 अभिनिर्√वृत् > *वृत्त- क्तिवा^०
 अभिनि√विद् > *अभिनि वेत्-
 ज्ञान^०, अभिनि (स् >) प्
 √ष्टन् (शब्द^०) > *ष्टान- दीर्घ^०
 अभिमि√हन् > *हन्- मार^०
 अभि√पत् > *अभि पत्त- उभय-
 त्^०, अभिपरि√ह् >
 *हरत्-, *अभिपरिहा-,
 *अभिपरि ह- अन्^०
 अभिपरी (रि√ह्) > *रीत-
 १ शहीन^०, महत्^०, यत्^०, सुखा^०
 १ अभिपर्यावर्ते^०, अभि√वा(रक्षणे),
 अभिपाति क्त ८, ५५^०
 अभि√पूज् > *पूजित- प्रयत्न^०
 *अभि-प्रति- ली पा २ १, १४
 अभि√प्रथ् > *प्रथन- अन्^०
 अभिप्र√युज् > *योज- सारण^०
 *अभि प्र√श्वस् > *श्वसत्- अन्^०
 अभिप्र√स्था > *स्थित- नः
 आपथी ९, ११, २०, द्विवे २३
 १९, अभिप्रा (प्र√प्र) ण >
 *णत्- अन्^०
 अभिप्रा (प्र√ष्ठा) प् > *अभिप्रा-
 (प्र श्वा) ण-, अभिप्राप्तुदात्त अन्^०
 अभिषे (प्र√ह्) > *प्रथ- २ सूर्य^०,
 तद्^० निशुति^०, यदात्त^० xx
 अभिषेव- अन्^०, यथा^०

अभिप्रो(प्र√ष्ठा) ष् > *अभिप्रो(प्र ष्)
 क्षत्- अन्^०, अभि√क्षु >
 *क्ष- २ वाच^०, उत्तम^०, चतुर्^०,
 चतुर्दश^०, द्वि^०, वृत्त्व^० xx
 अभि√भाप् > *भापय- धनार्थ^०
 *अभि भापमाग-, *भापि- अन्^०
 *अभि भापिद्- रिमतपूर्व^०, *भाप्य
 अन्^०, अभि√भुञ् > *भुञ्-
 अन्^०
 अभि√भू, अभिभवेत् अत्रम् ८^०
 अभिभूत्- मरक^०, द्विरय^०
 अभिभूति- निशुति^०
 अभिभू- > *भू-सौर्ध द्विग-
 *भू-शानम् पाय २, १४, १^०,
 १४^०, १६^०, अभि√मन् >
 *मान- वैश्व^०, १ रहल^०, इ^०
 अभि√मन्त्रि > *मन्त्रण- ३ चात्^०,
 आसादन^०, इद्^० xx
 *अभि मन्त्रि (न् >) नी- उवा^०
 *मन्त्रि, वा- शर्षवत्^०, १ उवा^०,
 उवा^०, सूक्^०
 अभि√मा > अभिमादि- >
 *अभिमादि पूर्व- अन्^०
 अभि√मिष् > *अभि मेषन- होत्^०
 अभिसुय, र्छा- अति^०, अन्^० xx
 *अभिमुलो √ह् > *काल-
 वामिनीमन्^०, अभि√मृश
 > *मर्ष- हर्षिर्वा^०, *मर्षन-
 अन्^०, का अन्^०, आपदी^० xx
 *मृष्ट- अन्^०, पर^०
 अभि√म्लै > *म्लै- अन्^०
 अभि√यञ् > *अभि यञ- अति^०
 अनी-वा- अति^०, अन्^०, अशो(र)त्,
 अशु^०, १ शीर्षमन्^०, १२^० xx

a) पृ २९२ आ > यति इ । b) दग्धे इति पाठ । यदि शोध (तु भाष्यम्, आपथी १४, २५, ३ च) । c) शोधार्थे वै १ २९१० अ द् । d) पृ २९५ अत्र ८, १ > यति इ । e) पृ २९५ यति इ । f) पृ २९६ ० नेण् । पर्यावर्ते इति शोध (पृ. वाप थी ७, १०५, १) । g) पृ ३०० अभिप्र > यति इ । h) पृ ३०२ अत्र ८, १ > यति इ । i) पृ ३०३ नय-नवानम् > यति इ ।

अभि/या > *अभि-याव- उपगान°
 अभि/युञ् > *योग- हृत्°
 अभि/रक्ष्, (अभि) रक्ष्य > या
 श्रया ७, ५४त्, अभि/रम्
 > *रत्- शब्दशास्त्र°
 *अभि-नति- अन्, सृगमा...त्°
 *अभि-नाम- तोखाव...त्°, प्रजा°,
 १मनश्°, अभिरूप- अन्°
 *क- १रुमार°
 *अभि/लक्ष् > *लक्षित- अन्°
 *अभि/लप् > *रपन- ध्वज°
 अभि/लिम् > *अभि-लिम्पत्-
 अन्°, *अभि/लुप् > *लुप्त-
 विशा°
 अभि/वद् > *वाद्- आरत्°, मन्°
 अभिवादन- आरोट्टण°, ३अरुन°,
 गुर°, रदी अत्°, प्र-यवरोहण°xx
 अभिवादिन्- > *अभिरादिनी-
 तद्°, वसोर्धात्°
 *अभि-ब्राह्म-, *वास अन्°
 अभि/वन्द् > *अभि-वन्दिन्-
 नि.य°, अभिवि/धा >
 *धि- मयीश°, अभिविहित
 > १ग- १माज्ञण°
 *अभि/वी > १अभिवी(त) > १ग-
 पुरत्°, अभि/वृत् > १अभि.
 मोवते- रस्योनि°, अभि/वृष्
 > *वृद्धि- व-रसता°, आया°,
 अभि/वृष् > *वर्षण- अना-
 च्छादित°, स्वप्न°, *वृष्ट- मेघ°,
 अभि/वै > *वा(त) > वा-
 अन्°
 *अभि-व्य(मि/अ)ञ् > *व्यकि-
 रहस्य°, अभि-व्या/ह >

*हार- आदित्य°, इन्द्र°, इन्द्रा-
 वरण°, वरुणा°, ज्येष्ठ°xx
 अभि/व्ये > *रमि-नीत- १वात्°
 अभि/वल्ङ्गु > *वल्ङ्ग°
 अभि/शोत् > *शैसन- इवृत्°,
 पातव°, १माज्ञण°xx; *अभि-
 शोत्सिन्- मिथ्या°; *शस्य-
 अन्°, कन्देशिन्°, उरुदृ°xx
 *अभि-शरतेभ्य- अन्°
 अभि-शरि-; *अभि-शरस्य- अन्°
 *अभि/शद्क् > *शद्वा- पाप°
 अभि/शप् > *शप- शपव°, शप°
 अभि/शर्वर- इन्°, अभि/शुच्
 (दीप्ता) > *अभि-शोक- इन्°
 अभि/श्र् > *श्रावण- २माज्ञण°, १स°
 अभि/पिञ् इच् > *पिक- इन्°,
 राजपुत्र°, *पेरु- धर्मि°, १हृत्°,
 वृष°, पुष्प°, प्रथम°, राजन्°,
 राजप°xx, *पैक्य- इन्°,
 *पेचन- ३माज्ञण°, पुष्प°, *नीप-
 गोसर°; अभि/पु (अभिषेवे)
 > *पर- २ध प्यावन°, २उप-
 षु°, महत्°xx, *पवमा(न) >
 षु°, *पुत्- सहृत्°, *पुत्- अत्°
 *अभि-पेण- > *अभि-पेण- *धौमव°
 अभि-पि- षु°, अभि/प्टु > *अभि-
 ष्वन- निवद°, १शक्त°
 अभिसं/युञ् > *योग- १ए-
 कन्द°, देवता°xx, *अभि-
 सं/वृ (आच्छादने) > *वृत्-
 शुद्धवैल°, अभिसं/धा >
 *धि- > *विकृत-, *विपूर्व-
 इन्°
 *अभि सम्-अये (व/उ) > अभि-

समवर्(व-अ)प- १ए°
 अभिसं/पद् > *अभिसं-पति-
 आहवनीय°; अभिसं/धन्त्
 > *धन्- १अत्°, अन्°,
 आत्मादान°, रमन्°, चोदना°xx
 अभिसं/भू, अभिसवभूःशुः
 अभि/सृञ् > *अभि-सृज्- अन्°
 अभि/रत्, स्तु (आच्छादने) >
 *अभि-स्तो(ण) > *र्णा- फल°
 अभि/हन् > अभिपात- आनाम°,
 चैत्यरक्ष°, मेद°, रवाना°; अभि-
 णद्- इन्°, *हुत- उज्वा°,
 वेशनीरुह्यवचत्°, *अभि-
 √हृस् > *हास- स्त्री°
 अभिहि/कृ > *कार- कपटारा-
 नुमन्त्रण°, *अभिहि-कृत-,
 अभिहि-कृत्य अन्°
 अभि/हु (वाना) > *हुहृत्- इन्°
 अभिहुत्, ता- इन्°, संपात्°, महत्-
 संपात्°, अभिहोम- १अव°,
 अभिमती°, पद्°, पुरप°xx
 अभि/ह् > *अभि-हार- अति°,
 इन्°, तद्°, यद्°
 अमी(मि/र) > *अभ्य (मि-प्र)प-
 आदित्य°, तमस्°
 अमी(मि/ई), *अभि (दंनहे/°
 अमीत्व- > आभीक्ष्ण्य- कुतल°
 अमी(मि/ई,श्) > १अमीक्ष्ण- दशन°
 *अमीपु- पावउ ५, १.
 अमूर्ति- स्वैद्य°, अमोद्- अर्ध°,
 पद्°, स्व°
 अमोजन- प्राम्द°, निराज°
 अमोत्य- कामद्वय°, भोजव°, १मपु°
 अभ्यप्र- सु°, *अभ्य(मि/अ) च्

a) उप = उपगान- । b) पृ ३११ श्रुत् > यनि इ. । c) पृ ३१५ अभि पवमाण- > यनि इ. (उ. आधी २३, १३, ७ सोममति इति पठि) । d) व्यप. । उप < सेना- । e) अन्त्याधीन. पय प्र (पा ४, १, १५०) । f) पठि पृ ३१० अ. ३ । g) पृ ३१९ अमी° > यनि इ. । h) अममुक्तपात् इति शोध (उ. स्या वी ७, १०५, १ श्रुत्वा इ) ।

> अभ्य(क)जा- जा
या ६, १५६^१।
अभ्य(भि/अ)ञ्, ङ् > २अभ्य-
क, जा- क्त^१, घृत्^१, तैल^१ × ×
अभ्यङ्ग- १११^१, अभ्यजन-अधन^१,
१आधन^१, राट्टाशयन^१ × ×
अभ्यजन-हुवा(त आ)^१ × ×
अभ्यधिक क्त- त्रैविक^१, रश्रोण^१,
द्रादगभ^१, *अभ्य(भि/अ)घी
(भि/इ) > अभ्यभ्य(भि/अ)
यन- रमशान^१
अभ्यन्तर, रा- ८५^१, द्विमात्^१, पात्^१,
२मण्डल^१, १वर्ष^१, ६भ्मात्^१ × ×
अभ्यय^१, अभ्य(भि/अ)र्च् >
१र्च^१ अर्च्^१
*अभ्य(भि/अ)ल्लिङ्ग(ल) > त^१- ल^१
अभ्यय/इ > १हरण- भैक्ष^१, १हार-
१विल^१, विद^१, मात्^१, मूत्-
शकृच्छुका^१, *अभ्यवहार-सयोग-
मूत्पुरील्लेकुविल्लसन्^१, अभ्यवे
(व/इ) > *अभ्यवा(व-अ)व-
*अभ्यवा(व-अ)पिद्- १उदक^१
अभ्य(भि/अ)श् (जाता) > १श-
अन्^१, २मण्डल^१
१ अभ्य(भि/अ)स् (मुनि), अमि-
करिन्^१, अमि(अमि)^१
अभ्य(भि/अ)स् (क्षेपणे) > १अभ्य-
स्त, स्वा- अन्^१, इतिहरण^१,
एवादाण^१, गत^१, १वृह^१ × ×
अभ्यास- अन्^१, अमिष्ट^१ × ×
अभ्यास तिमि^१
अभ्यास-विकार- अन्^१
*अभ्य(भि/अ)सिद्- निवृत्त

वर्मेत्^१, *अभ्य(भि/अ)सूय
> १पा- अन्^१, २अभ्यस्त-
> १स्तम्/इ > १स्तम् अय-
अनुदधत्^१
अभ्या/गम् > १गम- शोदिष^१
*अभ्या गमिष्यत्- अन्^१
अभ्या/चर् > १चार- २रे^१ हिप
अभ्या/तन् > अभ्या तात्- १अय^१
अभ्या/घा > १घान- अनेय^१,
इभ^१ × ×, १हित- नित्य^१
*अभ्या/क्षा > अभ्या शाय- आर्च^१
*अभ्या/वृ(अ-अदने) > १वृ व दन्^१
अभ्या/वृत् > १वर्तयन्- अन्^१
अभ्यावर्तिन्- कर्मन्^१, देवता^१, गत्या^१
अभ्यावृत्ति- कर्मन्^१, क्रिया^१
अभ्या/सञ्ज > १सक- अन्^१
*अभ्या(भि/अ)/सद् > १सादकत्-
अन्^१, अभ्या/हन् >
*अभ्या-हत्- अन्^१
अभ्यु(भि/अ)ह् > १हित-, १द्व
अन्^१, अभ्युच्/चि > १चय-
मुत्या^१, स्वात्^१
*अभ्यु(भि/अ)ह् > १ह्/चि >
अभ्युदि(भि/अ)ह् > १द्व-
आर्चय^१, सर्व^१, अभ्युद् इत्,
ता- अन्^१, अनिष्ट^१, अनिनि-
पुत्^१, अहुत्^१, १पूर्व^१
*अभ्युदित किमुक्- १पूर्व^१
अभ्युद्/ह् > १ह- अन्^१, हत्^१
अभ्युद्घृ(भि/अ)ह् > १अत्, ता-
अन्^१, पुन^१, अभ्युद्/यम्
> १यत्- एप^१

अभ्यु(भि/अ)ह् > १नी > १नीय-
पुन^१
*अभ्युप/पद् > १पति- क्रीनाल^१
*अभ्यु(भि/अ)प/शी > १शय-
२तर^१, अभ्युपे (व/इ) >
१पाय- निर्वेप^१
अभ्यु(भि/अ)ह् (मितके) > १-
म-त्रार्थचिन्ता^१, योग^१
*अभ्याज- १आज^१, अग्नि- ४१^१
अभ्यादान- वृषाहुदि^१
अभ्येप- सुत्^१, १अम् (गत्यादिपु)
अभि^१, १
१अमत्र- अति^१, *१अमन-
*अमिन्-, *२आमन्-, *आमिन्-,
एमान-
१अम् (रोगे) अभि^१, *२अमन्-,
*अभि- अिर्त्^१
१अमन्- > अमा > अमाय-
१तुर्व^१, देश^१, पुन^१ × ×, अमन्-
वास्था- २अष्टका^१, चतुर्दशी^१,
वीर्यमाती^१, ४१^१
आमाराह- पा ४, ३, १६^१,
*अ महल- गद^१, २अमन्- स्वाली^१
अमनुप्य- राज^१, १अमन्त्र- मन्^१
अमन्त्रसंस्तर- ना^१ बोपि ३, ५,
१, *अ मर्प- अतर्त्^१
अमल- १अमन्, *अमल-अल- सित^१
*अमल(त अ)मु- अलविपुन^१
ता^१, अमहीयु- > अमही-
य- गावन्^१
अमानुप- मानु^१ २अमित, ता-
अम^१
अमिष- अन्^१, अभि^१, दो^१ × ×

a) पाठ १ अन्(र/अ)म्यक् इति शोध । विष (अयात्- [कटि] = इन्द्र-नाम् ।) वास्यान्ते वा इति पदस्य
पालयम् । शेर देव २ अभ्यक्त्- इत्यत्र गतम् । इ ३२१ < अभ्य(भि/अ)ञ्, ङ् नेटम् । b) इ ३२१ यनि.
एटयाशेव द. । c) इ ३०१ यनि द. । d) इ ३२२ अर्चं किदोशे नेट । e) प्राक् । f) इ ३२४
अमी > यनि. द । g) इ ३२४ यनि द. । h) *अभ्य इति पाठ (इ इ ३२६) यनि द (तु संस्तुं टि,
याने च) । i) इ ३२४ पाण ४, ३, १६ > यनि द. । j) मन्त्रोपचारा दीपि (तु संस्तुं टि) ।

अमीव,वा- अन्, अमृत- अम्
 वीष्ट २,५,२४^१ [अ- वृत्, १३^१]
 १३^१ [अ- वृत्, १३^१]
 *अमृतवृत्त- अमामा^१
 अमोघ्य- अमयमाति, कल्पयन्^१,
 १मस्तान्^१ म्^१ x x, अमोघ्य-
 दशान- रत्न^१
 *अमोघ्य-अ(अ)भा^१- सधिनो^१
 *अमरक-ति, अमरर-(>) अमर-
 र्थं वा) पाग ३, १, २० [१-
 १३^१, १३^१, १३^१ x x]
 *अमर ३ सस- रमित^१
 अमरीच- कशास^१, गुणवृत्तविद्वत्^१,
 वेदयुक्त^१, अम्यष्ट, छा-
 १मवर्ष^१
 अमरा- ४^१, अमधु- उष्ण^१,
 १शु^१, १धिर^१, सुपा^१
 *अमृज-मुस, अमृज- २काल^१
 *अमृज-विपु- स्त्री^१
 अमृ^१ > १ृत्- अन्^१
 *अमृ(मृ-उ) सगं- भृति^१
 अममस- १ओ^१ वृत्^१, गत्रा, वृत्^१ x x
 अममो १- (>) अ-वृत्त- पावा)
 पागम ४, २, ५^१
 अममृण- > *अममृणि- > श्री-
 श्री वीथी १८, ४२ १५
 अमल- धान्य^१, १जगण^१
 *अमिलया^१- पारिभाष^१
 *अय अमु(रा) > ला^१, व(रा) >
 ला^१, अयमान- *अयित-
 *अय
 अय- √इ (परि) द

*अयजमानवाचन- इस्तीमयो^१
 अयन- √इ (परि) द
 अयस- अयन्^१, अयन्^१ पलाश^१,
 मारु^१ भावस- २काल^१,
 साध^१, २शश^१, सर्प^१, सीत^१,
 सु^१, हैन^१
 अय विण्ड- > *अय विण्ड लोह-
 वण्ड- प्रदीप्त^१, अयस^१-
 १वृष्ण^१, १कोह^१, १चोरित^१
 *अयो रस- शर्करा^१
 *अयो विकार- युक्ति^१, १अयसि^१
 कौष्ट ४६ ५५^१
 अयातया(मन् >) म्नी- *अयात
 मिन्या वीथी ६ १४ : १३^१
 अयास्य- > भाषास्य- त्वाष्टीसामन्^१,
 वासिष्ठ^१, अयुक्त युग्म^१
 अयुग्म, अमा- अयुग्म^१, अयुग्मेष्टि
 (ता >) क^१, अयुग्- तृतीया
 दि, युग्म^१, १५^१, सप्तम्या^१
 अययोग- गमनागमन^१, अयो
 गव- > अयोगव- रसुत्^१
 *अइ (अजावा) > अमर- आ^१
 *अइ आ, प्र, १*अर- > अरम्
 पागम ८ २, १८^१, २अर-
 इवशन्^१, १अरन्^१, ४४^१, सा
 दशन्^१, ५अर^१- √अ(परि) द
 अररण- अ, -वृत्त दिशो १०,
 ५, १३ [अ- इन्, सु^१]
 अररण- > अरण्य- प्राग^१, नैयिष^१,
 महर्^१, यश^१, आरण्य- प्राग^१
 आरण्य मोजम- अन्-
 न्यापान^१, आरण्यसन्- अयवा

धान^१, *आरण्यो (अ-शो)
 पथि- १३^१
 *आरण्यक^१- पा ४, २ १२१
 [अ- वृत्, सर्प^१, स्वाध्याव^१]
 अरण्येय- वाग्दे-य^१, ४^१
 अरण- √अ (परि) द
 अरणिणी- अघर^१, अन्^१, अर-
 अथमोमर्भ^१, १उत्तर^१ १दर्भ^१ x x
 *अरणिनी- पलाश^१, अरति,
 ली- अष्ट दशन्^१, १एग^१, एक
 विंशति^१, चतुर^१, नयतिगद^१ x x
 अरतिप्रादेश- ४^१, अरतिमान-
 प्रादेशमान^१
 अरथि- √अ (परि) द
 अररक- (> आर^१)
 *अरल- निम्ब^१, अरलु- विभीषक^१
 अरचिन्- निम्ब^१, अरि- वृ^१,
 १देव^१, आन्त^१, अरि- १म^१-
 *अरिमेद^१- १वृत्^१, अरिप्र. प्रा
 (अया)- अयोतोवृत्तन्^१,
 वाच^१, दुस्वप्न^१, स्तेषान्त^१
 १अरिष्टक^१- वृत्^१, १निमुक्त^१
 *अरिष्टक- सुविज्ञा^१, अरीहरण-
 नन्दि^१, अरुण, पा- अणस्य सु
 ६, ३६, ४, ४ [अ- वृत्त^१,
 गोक्षीर^१, १धूम^१, पीत^१,
 ३रत्न^१ x x] आरु^१- वृत्त^१
 मृन्^१, आरुणि- अठमर्ष^१
 अरुणकेतु- > आरु^१ कैकु-
 सापित^१
 *अरुणता- अरुणा^१, कुनविषय
 र

a) पृ २१८२ अ द । b) वग वा उर. वा । c) वृ पागम । d) तु पावा । e) = वृक्ष भेद ।
 f) सवापानपट्ट दृष्ट । g) सोय वे १, २२६३ ६ द । h) पृ २४० वीथी ६ १४, १३ > यति द ।
 i) पृ २४८ अ- > यति द । j) अरिष्टक । k) = अण्य- । l) = ओषधि निम्ब- । m) वप ।
 पृ २५३ जेम् । n) पृ २५३ यति द । o) पृ २५५ अरि- > यति द । p) पृ २५५ १। > द ।
 पाव ४, ०, ८० इति जेम् । q) पृ २५६ यति. मन्वापान द । r) पृ २५६ अण्य- > यति द । s) पृ
 २५० यति आरु वा भेदा ।

अदण्योः^३ वेधी २०, १४ ५
 अरस्- वृत्तः, अरफित्- ष्ठी
 आर्ध १, ५, १२
 अरोरु^३-, *१२अरोरु- रुतिता^३
 अरोग, गा- > आरोग्य- अन्,
 द्यायु^३, रजुगल^३, वधु^३
 धी^३, *अरोघ- वृत्तिमा^३
 अर्क- √अच् (परि) इ
 *अर्जूप- (> आर्जूप- |> वा
 यण-] वा) पाग ४ १ १०४,
 १००, अर्जूलूप- (> आर्जूलूप-
 |> अयण-] अयण- अ)
 पाग ४, १, १०४, १००, २, ६०
 अर्गल- ४५°, √अर्घ् > अर्घ-
 २अक्षत^३, अर्घ, गो^३, तुलाम न^३,
 बहु^३, महर्^३, सम्^३, सहस^३ ××
 *अर्घ पर्यन्त- आसनादि^३
 अर्घ- १र्घम् कौट ३ १४, १३^३
 [०र्घ- आनाहन^३, १९० ××]
 *अर्घपरिपम्^३ आसिष्ट ३ १, ३
 ३६, √अर्घ अग्नि^३, था^३,
 प्र^३, प्रति^३, सम्^३, समग्नि^३,
 अर्क(वप्रा)^३- अग्ने^३, अग्निज^३,
 अनामार्ग^३, १२दित^३, वेरा^३ ××
 *अर्क विरज- तीक्ष्ण^३, *अर्क
 परिप- रजन्^३ पुष्य- अष्टदि^३
 *अर्क अ- अर्तमान^३ *अर्क
 रश्मि- १त्रात^३, *अर्क-सूत्र-
 १५२^३, *अर्वा(र्क अ) अलोकर-
 १उद्व^३, *अर्क(र्क इ) सु-
 मण्डल- २कपिल^३, विष्मस्त^३,
 *अर्क(र्क-उ, द्य- अलन^३
 अर्च- १५५^३, अर्च- १५६- १५७-

१५-पुत^३, निग^३, सु^३, १मु^३
 *अर्च- सर्वदे^३, अर्च-
 देवता^३, १आर्ध^३-
 अर्ध- अर्धदीप्त^३, देवता^३, विदित^३
 अर्ध- १ ता- अर्ध^३, घृत्^३, गज्या^३
 अर्धित- अर्ध, अ- अर्ध- अर्धदीर्घ^३,
 १अर्धित^३, २उद्व^३ ××, *अर्ध
 √अर्ध अर्ध^३, अर्ध^३, उर्ध^३, प्र^३
 *अर्धयित्- *अर्धित- २धर्म^३,
 रथम्^३, अर्धुन- भीम^३, भीम
 रोम^३, विष्मस्त^३ अर्धमन्^३,
 अर्धुन सु^३, १अर्ध- १९६^३,
 वि^३, अर्धय- १६६^३, धीर^३,
 महत्^३ अर्धित^३, अर्धयित^३ ××
 अर्धित्यमाण- √अर्ध (परि) इ
 √अर्ध प्र^३, सम्^३, तम्^३, अर्ध- अर्ध^३,
 १अर्धयित^३, अर्ध ××^३, अर्ध-
 (क)- अर्ध^३, अर्धक^३, सिद्ध^३
 अर्धयित- अर्ध^३, *अर्ध तम्
 विण्णो(एउ-उ) र्धक गोत्र- रगा
 नार्ध^३, अर्धय- १, अर्धय- २,
 अर्धय- अर्ध^३, अर्धय- ३,
 अर्धय- ४, अर्धय- ५,
 अर्धय- ६, अर्धय- ७,
 अर्धय- ८, अर्धय- ९,
 अर्धय- १०, अर्धय- ११,
 अर्धय- १२, अर्धय- १३,
 अर्धय- १४, अर्धय- १५,
 अर्धय- १६, अर्धय- १७,
 अर्धय- १८, अर्धय- १९,
 अर्धय- २०, अर्धय- २१,
 अर्धय- २२, अर्धय- २३,
 अर्धय- २४, अर्धय- २५,
 अर्धय- २६, अर्धय- २७,
 अर्धय- २८, अर्धय- २९,
 अर्धय- ३०, अर्धय- ३१,
 अर्धय- ३२, अर्धय- ३३,
 अर्धय- ३४, अर्धय- ३५,
 अर्धय- ३६, अर्धय- ३७,
 अर्धय- ३८, अर्धय- ३९,
 अर्धय- ४०, अर्धय- ४१,
 अर्धय- ४२, अर्धय- ४३,
 अर्धय- ४४, अर्धय- ४५,
 अर्धय- ४६, अर्धय- ४७,
 अर्धय- ४८, अर्धय- ४९,
 अर्धय- ५०, अर्धय- ५१,
 अर्धय- ५२, अर्धय- ५३,
 अर्धय- ५४, अर्धय- ५५,
 अर्धय- ५६, अर्धय- ५७,
 अर्धय- ५८, अर्धय- ५९,
 अर्धय- ६०, अर्धय- ६१,
 अर्धय- ६२, अर्धय- ६३,
 अर्धय- ६४, अर्धय- ६५,
 अर्धय- ६६, अर्धय- ६७,
 अर्धय- ६८, अर्धय- ६९,
 अर्धय- ७०, अर्धय- ७१,
 अर्धय- ७२, अर्धय- ७३,
 अर्धय- ७४, अर्धय- ७५,
 अर्धय- ७६, अर्धय- ७७,
 अर्धय- ७८, अर्धय- ७९,
 अर्धय- ८०, अर्धय- ८१,
 अर्धय- ८२, अर्धय- ८३,
 अर्धय- ८४, अर्धय- ८५,
 अर्धय- ८६, अर्धय- ८७,
 अर्धय- ८८, अर्धय- ८९,
 अर्धय- ९०, अर्धय- ९१,
 अर्धय- ९२, अर्धय- ९३,
 अर्धय- ९४, अर्धय- ९५,
 अर्धय- ९६, अर्धय- ९७,
 अर्धय- ९८, अर्धय- ९९,
 अर्धय- १००

*अर्धित- १अर्धित^३-
 *अर्धन- *अर्धना- *अर्धयत्-
 *अर्धयमान- *अर्धयित्-
 उर्ध^३, विद्या^३, धीयशर्^३
 *अर्ध अर्ध- अर्ध^३
 √अर्ध २उद्व^३ नि^३, प्र^३, वि^३, तद्^३
 *अर्ध- *अर्धय- नि^३, अर्ध-
 अर्ध- १७०^३, अर्धित-
 अर्धय^३, अर्धययार्ध^३
 *√अर्ध (=√अर्ध) अर्ध^३
 अर्ध धा- पा १, १, ३३ [०र्ध, धा-
 अर्धय^३, ३अर्ध^३, अर्धयत् ××]
 अर्धय- प्रति^३, अर्धययत्^३ >
 ०वीय- अर्धययार्ध^३
 अर्धययार्ध- २अर्ध^३, अर्ध-
 मात्- अर्धयार्ध^३, नात्^३, १अर्ध^३
 १अर्धय- अर्ध^३, १अर्ध^३,
 तुय^३, अर्धयार्ध^३, १अर्ध^३ ××
 अर्धयार्ध(र्व-अ) अर्ध- अर्ध^३
 *अर्धयार्ध- अर्धयार्ध^३, *अर्ध
 यार्ध- अर्धयार्ध^३
 *अर्धयार्ध- अर्धयार्ध^३, अर्ध
 यार्ध- अर्धयार्ध^३
 *
 अर्धयार्ध- १अर्धय^३, अर्धय^३, अर्ध-
 यार्धयार्ध^३, ४अ^३
 अर्धय(र्धय)नी- अर्धययित्- अर्ध-
 यित्त्तुम्, अर्धययित्- अर्धयत्-
 √अर्ध (परि) इ, √अर्ध
 था^३, २उद्व^३, उर्ध^३, प्र^३, सम्^३
 *अर्धय- अर्धय- अर्ध^३, तद्^३ ××
 *अर्धय, अर्धय- अर्ध^३, नि^३
 *अर्धय, अर्धय(वप्रा)^३- अर्धय^३, नि^३
 अर्धय- अर्धय^३, अर्धय- अर्धय^३

a) अर्धय- > ष्ठी इति शोच (तु शषा आपथौ ५ ११, १२); b) पृ ३५० यनि सत्यासनेन इ ।
 c) = कात् विरेप । d) पृ ३५० यनि इ । e) ष्ठी पृ ५०५ इ । f) माप्यासनेन इति शोच (तु इष्ट
 २ १३, ३) । g) वैप इ इ । h) पृ ३५० ३५१ यनि सत्यासनेन इ । i) पृ ३६२, ५४५ यनि सत्यासनेन इ ।
 j) पृ ३६२ था- > यनि इ । k) पृ ३६३ यनि सत्यासनेन इ । l) उल उव < ष्ठी (व √र्ध) इ ।
 m) पृ ३६५ यनि सत्यासनेन इ । n) ष्ठी. प्र । o) पृ ३६० थि > इ इ ।

घर्षण- २६९°
अव/घ्रा > घ्राण- अन्°, रीद्र°
 अघ्राण- २२९°, घ्राण- १° अव
 गिरान्- अन्°, अवच- उच्च°
 अघचन- अघर्षणार्थं, हा°, विधा°,
 संश्लेष°, अव/च्छिद् >
 च्छिद्- अन्°
 अवच्छेद्- समूह°, अवच्छेदक-
 वाहरसारथा°, अव/छो >
 च्छात- सवर्णपुच्छ°, अव
 /ज्युत् > ज्योत्सु पुनर्°
 इअघट- श्रावु°, श्रौतुम्परी°××
 इअघट- जामाति°, १सावर्धि°
अव/तक्ष > तक्षण- पत्नीवरण
 पुण्युषा°, अव/तन् > तन्-
 च- हिथी ६, ३, १०, -तम्°
 यात्री ३, ३, २, १८, १अव
 ताग°(वधा)- किंर°
 २अघतान°-(>था°)
अव/त् > अव-तरण- २२९°
 अव तार- उद्धार°, २२९°
 अव-तारिद्- २२९°
अवतो(क) > रा- पुत्रगामा°
अव/द् > अव-दाण- छेदन°
अव/द्वै (शोधने) > शोध- अलक्ष
 अलक्षता°, त्रि°, १अवाम°
अव/दो (अवसाधने) > अत्,
 सा- अन्°, १अघ्रव°, अद्°××,
 दान- ३आज्य°, १द्वि°, उप
 रतरण°, १एक°, अद्°××
 अवदानीय- अन्°, अवघ-
 अव/द्वा > द्वाय- अन्°
अव/घा, अव घेदि शोधौ १६
 ३ ३६°, अवघान- मणिव°अव°

रघुन्°, भाय अन्°, धि-
 रकेत°, तद्°, १त्रिपुरा°××,
 मरधि(क)- इति°
अव/धु, धू > धवन- १दृष्याविति°
 अव धूत- अमेध्य°, ननाजत्रा
 शन°××; अव/धृ > अव-
 घाक- विनिवर्तक°, ०आरण-
 अन्°, अर्थ°, १काम°, प्रत्यय°
 धाति- अव° अव/धृ(त) >
 ता- अन्°, स्वरित°
 अव/धृम् > धर्व- अन्°
अव/ध्वत् > ध्वस्त- १विप°
 अव/नद् > नद्- अन्°
अव/नम् > नभ, ता- आयत्°,
 उदीचीन°, विनय°
अव/नद् > नद्- कर्मन्°
अव/निद् > निक- तथा°
 अवनिक पाणि- अन्°
 अवनिम्ब अन्°, अव-नेक, गु-
 प्रहर्°, अवनेक- १११६°
 अवनेजन- १११६°, विपु°, १हस्त°
 अवनेजनी- २११६°, अव
 नेजित- यथा°
अव/नी > अव- अव ग्रहण°,
 उद्धान°, ध्रुव°, मोक्षणी°××,
 शीत- अन्°
अव/पत् (गती) > अव पतन-
 २अवर°, अवपथा° पा ६,
 १, १२१, अव/पद् > पत्र,
 झा- वीट°, केशकीट°, स्वयम्°,
 अव पांसु- मल्लयसजित°,
 अव पृष्ट- अन्°, अव
 दाप् > वन- इच्छुण्, २प्र-
 दान°, अव/धू > ध्व-

अन्°, अव/भिद्, अव 'भेत्
 वा ७, २२१°, अव/भु, अघ-
 भर > रा शुभा ३, १°११°,
 अवभृत्- अग्नि°, अन्°, अद्-
 मेय°××, अवभृत्-रमान-
 अरमेध°, अवम, मा- १९९°,
 त्रि°, प्रादेश°, रत°, रावतार°××
अव/मन् > मान- १मान°
अव/मिह > अव मेहन- > शी
 (य)वा- अन्°, अव/सृज्
 > अव सृज- उन्मूज°
अव/सृद् > सृज- अन्°
 अवसृद्- कुण्डारुनि°, धा- अन्°××
अव/यद् > या शीव ४, ३०
 अव/य पा°, अवधि- छे- शुभ
 ३ १२१ [छि- दिशाम्, १भूत्°,
 मूलानाम्] अव यत्- अवे
 (व/द्) परि द
अव/यु > य- अन्°, अरणि°,
 अदीपान°, कर्मन्° शोत्र°××
अव (व/रुह्) द् > अर्वाग्- >
 अवर्तिमुख- > छिद्- अन्°
 अवार- पार°, १अवर, रा-
 १अपर° अवर्तिका°, १अघ्रव°,
 इयमान°, १एत्°××, अवय-
 अन्°, अवर्(र-अ)त- अर°,
 १मधु°, अवराध, धि- अद्°,
 तावत्°, त्रि°, दशरान°, अव-
 राध- प्रावत्, अद्°××, अव
 रुह् > रुहि- प्रलापान°
 अवरोध- अन्°, न्ययोव°, २रोध°
 अवरोध- अन्°
अव/रुह् > रोह- १अरोह-शुद्ध-
 नयोव°

a) सपा 'त (तीरा ३, ५, ६, १९ च) <> अत् इति पाठे । b) पृ ३८७ वनि सप्यासके द ।
 c) पृ ४२५ यनि सप्यासके द । d) पाठे पृ ३९० अ द । e) पाठे अवपथा इति शोध (तु अग्नि
 ३८२°, वेप ३, २०४ c) । f) पृ १४५ k द । g) वैप १ द । h) लोटि गणु अद्तरणम् । ३) पृ ३५५
 धृ > h द ।

अवरोहण- आरोहण°
 *अरोहणा (स-आ) रोहण-
 वा° तिनित्, *अवर्ष्य-
 वर्य°
 *अ-वर्तमान- , अवर्धमान°- १।गवा
 ६२, १९०
 *अवर्ष- २वर्ष°, अव/लम्ब >
 *लम्ब- पृष्ठ°, *अव रभिवन्-
 तोय°
 अव/लिख् > *लेखन- दन्त
 प्रक्षालन°, पादप्रक्षालन°, पानी
 बसा°, १मधु°, मैकुल°
 आयलेखनी- उक्त°
 अव/लिप् > *लिप्त- पक्ष°
 *अव-लेप- यवा°, अव/लिह्
 > *लीह- उदकपादि°, फाक
 यत्°, कुनादि°, धकार°××
 *अवली°- मुका°, अव/लुप् >
 *अव-लोप- अन्°, वकारित°,
 १गुण°, *अव/लुस् >
 *लोभन- इन्°
 अव/लोक > *अव लोकन- शर्त्°
 *अव-लोकयत्- अन्°, अव/लुप्
 > *अर्पण- वण्टयम्°, स्तन°,
 अव/ल्ये > *अव-वीत-
 प्रचान°
 अव/शिप् > *सिष्ट षा- ओदन°,
 छततीव°, चतुर्थभा ला°,
 वण्टयु-२°, पीत°, वृ वजन°
 अयतेप- अन्°, वपाज°, पक्ष°,
 प्रोक्षय°××, मयसेवित- पीत°
 अव/श्रु (शिष्याम्) > *श्रीर्त्
 प्रकीर्ण°, अवश्य- > मार-
 इवक- २६°, शर्त्°, अव/क्षय्,
 मय अथाप गुप्त ३, ११२१

*अव/ष्व (<स) न्°, अ-व-
 सन्थि(क)का- वण्टयुत्°
 अव/सकञ्ज् > *सक- अरोहण°
 अव/सद् > *सद्- अण्वदत्°
 अव/सिच् > *सिक्त- आन्दुत्°,
 इन्°××, *अव-पेचन- *अभिव-
 र्पण°, श्वाप्तन°, २२२ण°
 अव/सृज् > *सर्जन- अन्°
 अयसृष्ट, षा- वृण्ण° २०°, इन्°,
 स्वापदसुप°, अव/सृप् >
 *अव-सर्पण- अन्°
 अव/सो > २मवसा (न) ना-
 अन्°, आदि°××, आरम्भ°,
 छन°, १९२°, कण°, घण्टा°××
 *अवसान-गत- सद्योपूर्व°
 अवसानीय, या- अन्°, पृथक्°
 *अव साविन्- अन्ता°, अन्त्य°
 अय-सि(त)ता- ता वा १, १५,
 ८१ [१व- नन्°, यथा°, समीप°]
 अव/स्कन्द् > *अव स्कन्दन- प्रति-
 लोभान्तरा°, *अव-कन्दिन्-
 -न्°-मिन् उभौ ३ १५, अव
 /स्तु(आच्छादने) > *स्तन-
 प्रवलयन्°, वरिष्ठ°, ४त्°, समा-
 र्जन°, *अव-स्तीर्ण, शर्त्- अन्°,
 १दर्भ°, मुञ्चरलाय°, अव/स्था
 > *स्था- अन्°, अलुवासोच°,
 २२२ण°, सर्व°, मूल°
 अवस्थान- अन्°, अवस्थित, ता-
 अन्°, उचितोदय° मात्य°, इत्या°
 अव/स्ता > *अव स्ता(त)ता-
 इन्°, *अव/स्फुट् >
 *अओदन- छेदन°, निर्हीनत°
 अव/स्फूर्ज् > *अव-स्फूर्त्-
 उक्त°, अव/धु > *साव-

१अण्त्°, चतुर्त्°, फेन°, मय
 साविन्- अन्त्°
 अव/हन् > *हन्- अन्त्°, *हत-
 अन्त्°, रात°, मन्त्°, *हनन- >
 *अवहनन मन्त्र- हविष्कृत°
 अव/हा (त्यागे) > *हाप- अन्त्°,
 अव/ह् > *हस्य- अन्त्°,
 दिलाक्ष°, रघ°, अया (व/अ)
 च् अन्त्°, *व्, व्च- नान्त्वा
 हिधौ ६, ६, १०१ [२च्, २च्-
 १९२°]
 अयाधी- उर्ध्व°, प्राची°
 अयाञ्जन- शर्त्ता°, अया(व/अ)न्
 > *अया (व-आ) नन्- अन्त्°
 *अया(व-आ)नम् अन्°
 अयान्तर- > *रेखा- > *अया त-
 रेखामाग- प्रणीता°, अया
 (व/या)प् > *त- अन्°
 *अया(व-आ)सि- अर्ध°, अरसेप-
 पत्त°, श्रोमर्थ°××, अवाप्य अन्°
 *अवाप्य- कृत्तिसा°
 अवाय- अवे(व/इ) परि ६
 अया(व/अ)सु (अपणे) > *अया
 (व आ)स- १शम्बा°
 *अया(व-अस्ता) > *स्ता-अप्रा°,
 लोकमन्त्°, द्वां, २अवि- वाउड
 ३, १४ [१वि- १अजा°, १अश्व°,
 गो°, पुत्रव°, भूमि°, धन्°××]
 आधिक- अमयजन°, १आन्°,
 १शापित°, कापय°, श्रेयैव°××
 अधिक, का- १अत्र°, १५ध°××,
 १अण्वय°-
 २अविचार- १आश्व°, उक्त°
 अविशेष- > *अतिक्रम विवेत्-
 कर्त्तर°, अ-विक्षारयत्-

a) १ ३९० यति द.। b) = परिष्-। c) वा ८, ३, ६९ १२२पृष्ठः द.। d) १ ७०८। d।
 e) १ २, २२२ द.। f) वाट. २ वाट. २, ५ इति शेषे (तु आया ६, १९, १)। g) = वात-विशेष-।
 h) १ ४०६ यति संख्यासंज्ञे द.। सदेहविक मेष्टम्। i) १ ४०७ आदि- > यति. द.।

*अ-विक्षेप-यत्, अविघात-सं-
योग, अविच्छिन्न-इति, अवि-
च्छिन्न- > *अविच्छिन्न-संवर-
धिक- प्रभृतय... क, अविदूर->
आविदूर्य-कात्मन्, अविप्रति-
पिद्ध- २धर्म, अविभक्त->
*क-त्व- मात्रावर्ण, अविभक्त-
इति, पशु, अविभाग-उपसर्गर्थ,
वर्मन्*xx, अविरत- श्वरान्तर,
अविराम- माष, शब्द, हाद,
अविरट्- देशाचार, *अ-वि-
रुद्ध- विरुद्ध, अविरोध-आत्मन्,
आधमधर्म, १दर्शन, वर्णगोत्र,
सोम, अविलोप-आर्षी, १तन्, २,
शुक्ल, पदह, अधिशाखा-
विशाखा, अविशिष्ट-उच्यते ३ध
३१२, अविशेष-अधुशिलयोग,
कारण, चोदनार्थ, सुतो, ३,
प्रकरण*xx, अविशेषचोदना-
१अवी, २अवी-√अन्(परि)द
१३अवी-दुष्प्र, देव, १अशुक्-
केन द्विधी ८, ५, ५६, ९, १, १९, ३,
३६, अशुद्ध-इद, अवे(व√इ)
> *अव-यत्-अन्, *अवा(व अ)
य-अन्, १उदक, *अवे(वइ)त्,
वा-अष्टम ग, तद्, १पददुष्ण,
अवे(व√ई)ञ् > *अवे(व-ई)
क्ष-अर्थ, निमित्त, १माद्यन्,
अवेक्षण-अजनती, अन्, अशुचि,
३आज्य*xx, *अवे(वई)दन्-

*अवे(वई)दन्, अवेक्षण-
अन्, अवेक्षित-अन्, चण्डाल,
*अवे(वई)क्षि-शास्त्रादि, अवे-
क्ष्य-अन्, *अवेदन-मात्रा,
शुतद्रव्य, *अवेधय-सीभाम्,
अघो(व√व)क्ष > *अघो(व-व)
क्षण-अपमार्जन, *क्षित-उद्धत,
सु, अघो(व√व)व् > *व->
*वै(द ए)वो(ध-घो)व्, अघ्यक्त-
पृथिवी, अघ्यतिरेक-लिङ्गदर्शन,
१अघ्यत्यस्यत्, *अघ्यथन्-
अतिप्रह, अघ्यथ्य-स्य, अघ्य-
पदेश-१विधि, २अघ्यथ-अन्,
तुल्यार्थ, निपात*xx, *अघ्य-
कारक-विशेषण-४त्, अघ्ययो-
√व् > *अघ-अन्, १अघ्यव-
स्था-प्रकृति, प्रत्यय, अघ्यवहि
(व)ता-नदीपर्वन्, अघ्य-
घाय-१काल, विषय, अघ्य-
वेत-आदिक, १काल
√अश्(व्याप्ती), जानसे अशुप्रथी ५
१६, १[अन्, अभि, आ, उपरान्त,
११२, प्र, प्रति, वि, ६म्, समा,
समुप] *अश-दुर, १अशन-
*अशित्पद-वि, अशुभाव-
अन्, *अश-प्र, अश्व, *अश्वि-
जत्, *अशाश-दुर १आशित्-
√अशु(गोत्रे), अश्लील वाधो, १,
५, ५ *अ[मति, आ परि, प्र,
प्रातप्र, सम्] ३अशन-नम्

माधो २, १, १, १३ [व-अन्,
अनित, २अप्->प, आमथाद,
आरण्य*xx], अशित, ता-, *अशि-
तन्, अशितुम्, *अशित्, अशि-
त्या अन्, १अशित्पद, *अशि-
प्यमाण-, अदन्, *अश्व-अन्,
अश्वमा (न)ना-, *अशाश-
३आज्य, प्रात, १रत, *आश-
क-अन्, आशविरवा, आशित-
न विध ६८, ४८, -ते वीश् १६,
३३ [त-अन्, तद्, प्रातर्],
२आशित्-कक्षारलवण, अशा-
रा*xx, आश्व-, *आश्व-अन्,
अशाकि-उपसर्ग, नित्य,
तत्तेमा*xx, *अशाकि-आनु-करण-
वदन्ता, अशानि-काव, कुद्,
अह, १दृष्ट, धतु, रज्जु*xx,
*अशानि-वष्टा-स्तोत्रित, *अशनि-
निर्वोप-अपरान्त, *अशानि-युक्त-
नस्, अशामीधान्य-
द्वयवत्-वत्, *अशालमी-
पिष्टै, वाधो ३, ४, ५, १०, अशा-
स्त्व-प्रयोगेति, आ आ।
शिर-, अशिष्ट-> *अशिष्टा (ह-
अ)प्रतिपिद्ध-१शिष्ट, अशीति-
वारदु ५ ४० [वि -१अश्व,
१एत, चतु*xx] अशुचि-
वच्छिन्न, उदकवा, पर, पारकवा,
अशुच्छ, सूय, हाह, आशौच-
क्षयित् तद्*xx, आशौचवा

a) तु निपादलक्ष्य [२४६]। b) पृ ४१२ व- > वनि द । c) पृ ४१३ वनि संख्या-
अनेत द । d) वै १ द । e) मस उप तर्हि क्व । f) पृ ४१० उ द । g) पृ ४१५ वनि द ।
h) व्यवस्थित इति सूत्रे । i) प्रपु १ क्त्वम् । j) पृ ४१९ वनि सल्लसत्वेत द । k) पाठे वै १ परि
अश्लीलवात् वै छ, ३, २ इत्यत्र टि लोप्यम् । l) पृ ४२० माधो > वनि शोष । m) पृ ४२०, ४२३ वनि
रत्नपासकेत द । n) मोवे कर्त्तरि च क्व । o) पृ ४२० वनि सत्पासकेत द । p) अशानियुक्त,
सम् इति द्विपद शोष (तु [ती १, १३ सू पृ ९१] इति वा ऋ (क्षि२) इति वा । q) पृ ४२१ गb >
द । r) पृ ४२२ *आश्व > वनि द । s) च, आश्वपव इति जीव । t) सपा वीधो १५, ३० ११
द्विधो १६, ५, १० विभ । u) पृ ४२३ गi > क द ।
वैप ४ प्र ९२

*आसीचिन्- उच्छिष्ट^{००}, आसी
 चोद^{००}, अनुचिकर-> रनिर्वैप^०-
 असीच- अन्य^०, जनन^०, द्विज^०
 पूर्व^०, रत्रावाण^०, मरण^०, इमरण^{००}
 अनुच- शुभ^०, अनुचि- शुद्धि^०,
 गृह^०, अशुभ- शुभ^०, अशुभ-
 ११०^{००}, अशुभ- अतिपक्व^{००}, शान^०,
 अशोप-> *अशोप रुमव-विगत^०,
 *अशोप-कठ पर-११०^०, रअशोक
 भिक्षु^०, रअशोक-यमान^०, अशम
 न्-अनसू^०, इमृत^०, अशिय^{००}xx, *आ
 शम-पावादि ४, १४४, १अशम कुह^०,
 *२अशम कुह^०-, *अशम-कुहक-
 तरकर^०, *अशम गन्ध- ११शाख^{००},
 अशमचूर्ण- अरक^{००}, *अशम-भा^०७-
 माया^०, अशममण्डल- परिधावन^०,
 अशममथ- अन्, तैमस^०, गृह्णन्व^०,
 अशमवह्नि व^०-, *अशमन्तक^०-
 १कुत्र^०, *अशमयोक्त^०- पलाश^{००}
 *अश^०- १अष्ट^०, चतु^०, १०,
 अश्रवा- वैशुन्व^{००}, अश्रवण-
 १अश^०, अश्रवणीय- अश्रुनीद^०
 *अश्रि- प्रसिद्ध^०, १अष्ट^० चतु^०,
 नि^०, द्वि^०, नन्, अश्रु- अन्,
 आसीच^{००}, वि^०xx, *अश्रु करग-
 आनि^०, *अश्रु नयन^०- अन्, अश्रु-
 पात- तद^०, रअश्रुत-> *अश्रुत-
 वपुण- व^०, रअश्रुति- फल^०
 इतिरिद्ध^०, अश्रोत्रिय- अश्रुदीन^०,
 अश्लील- अन्, धादक^{००},

रअश्व- १अज^०, अयत^०, अन्,
 अननुह^{००}xx, अश्वतर- १अश्व^०,
 श्वेत^०, अश्वतेद्वि- निम् शशी
 १६, १८, १९^०, १अश्वमेध- १कृष्ण^०,
 *अश्वमेध- अन्, अर्ष^०, श्रौषणु
 वाक^{००}, राजसूय^०, ४त^०, आश्वमे-
 धिक- *की- अतिक^०, आश्रितनी^०,
 प्राजापत्य^०, अश्वमेध^०वह- चाहुर्मा
 स्वव^०-वैदेव^{००}, अश्वयुज->
 आश्वयुज-> *जी-> *जी-पञ्च^०-
 १अश्वरथ- धत^०, रअश्ववाल-
 शरमव^{००}, अश्वशक- गोपुण्य^{००},
 *अश्व सारण्या (वि-आ) युध- वि^०
 १अश्वसूत- रडासधार^० अश्वसू-
 चिन्- गोपुचिन्, रअश्वसूत-
 २गोपुक्त^०, अश्वज्ञ- देवता^०,
 अश्ववि- अर्या^{००}, १अश्विन्-
 रवी^०, रअश्व^०- (> रअश्व-)
 रअश्वपाणम् अथाव ६, ८, रअश्व
 रथ- पा ४, २, ५^०, पाग ४, ३,
 १६^{००} [अ- अन् अर्क^{००}, आश
 हावणी^०, चादन^{००}xx], आश्व-
 पाण^{००}, १अश्व^०, अश्वत्थपर्ण-
 सार^०, रअश्विन्- १तिष्ण^{००},
 रआश्विन^०- आश्व^०, रआश्व^०,
 साश्वि^{००}, सौम^०, १आश्विनी-
 वाहिशक्या^{००}, *अश्विनो (मात्य-
 स्तोम) शशी १४, ७०, १, ७२, ९,
 अश्विनो-अश्व^०- अम् तुष्ट १, ३, ४,
 ६, -जे जैषीरद्वे १४, जैषीका ६०

रअपाठ, डा- ५अवना^{००}, महिणी^०,
 स्वदमातृणा^{००}, १आपाठ, डा-
 उत्तरा^०, पूर्वा^०, १आयुन^०, अपोड-
 शिक, का- का निम् ९१
 ४१^०, -की तुम् ३, २७, रअष्ट^०-
 ✓अष्ट (वेधने) परे द रअष्ट-
 ✓अश (व्याती) परि द रअष्टक-
 अशदान^०, तद^०, नवक^०, वि^०,
 रअष्टन्- नि^०, दशन्, द्वाद-
 शन्^{००}xx, रअष्टक, का- अन्,
 अशु^०, अशु^०xx, अष्टका (व-आ)
 दि^०-, अष्टका (वा अ) तुष्टवि^०-,
 अष्टकाश्राद्ध- महालय^०, अष्टमज
 थ्या (वि आ)^०, अष्टम- अशरत्न^०,
 प्रमादारवा^०, अर्ध^{००}xx, अष्टमी-
 १कुण^०xx, अष्टमदेश- अ-अष्टम^०,
 ४त^०, *अष्ट युक्त- पदयुक्त^०, अष्ट
 शत- गायत्री^०, ६०^०, सावित्री^०,
 अष्टसहस्र- गायत्री^०, सावित्री^०
 अष्टाचर- एकादश क्षर^०, द्वादश-
 क्षर^०, अष्टादशुक्तिस्तारा (र आ)
 यत(>)वा^०-, *अष्टाचरकारिंशत्-
 > अ- चतुर्विंश^०, अष्टादश^०->
 आष्टादश^०- द्वादश^०, अष्टादशन्-
 > अ- चतु^० अष्टादश^०, महा
 पद^०-> दी- मन्त्रवाङ्मण्य^{००},
 अष्टिका- पवइष्टिका^०, रअष्टि-
 ✓अश (व्याती) परि द रअष्टि^०-
 अति^०, अटिजयती^{००}, अतिश-
 करी^{००}, गायत्री^{००}, श्रुति^०xx

- १) पृ २८४५ ॥ ३ । ४) पृ ४०३ ॥ १५ । ५) पृ ४२५ वनि अट्यानिर्वेद द ।
 ६) = अशम-कुह । ७) पृ ४२६ ॥ १७ । ८) = तुष्ट भेद । ९) = तुष्ट विशेष । १०) = अश्वि-
 (शेष-) । ११) वप । १२) अश्व वापूरी ३ १९ ५ जेननीम् इति पाठे । १३) पृ ४३१ ॥ १०० । १४) पृ ४३१ ॥ १०० । १५) पृ ४३४ पाग ४, ३, १६४ > पाग द । १६) पृ ४३४ वनि अट्यासमेत द । १७) पृ ४३४ पाग ४, २, ५ > वनि द ।
 १८) पृ ४३४ पाग ४, ३, १६४ > पाग द । १९) पृ ४३६ वनि अट्यासमेत द । २०) = आश-निर्वेद- । २१) पो^०
 इति पाठ २ वनि शोव (तु निम् ८, ४ > ४) । २२) पृ २८२ वनि अट्यासमेत द । २३) पृ ४२९ का
 (वा अ) > वनि द । २४) पृ ४२९ का (वा आ) > वनि द । २५) पृ ४४० व्या (विन् मा) > वनि द ।
 २६) पृ ४४२ निराणा > वनि द । २७) पृ ४४३ अष्टासा > वनि द । २८) पृ ४४५ वनि अट्यासमेत द ।

*अष्टीव- १३४°, १६°, १। अष्टीवत्-
-उन्ता माश्री ५, २, ९, ४ [०-
जातुबहुः]

✓असु (मुनि), †असि° कौशु ४, २,
६, द्वि १, १९, ३ [अति°, अतु°,
अभि°, आवि°, ईशाम्, उव°,
वामयाम्, वारयाम्, शीर्षयाम्,
छन्दयाम्, अनयाम्, दर्शयाम्,
मेनीयाम् परि°, प्र°, प्रदाययाम्,
व्युत्पादयाम्, शरहरा°, मिथयाम्,
सम्, संवादयाम्, मनीषी°]
*असु- हस्तु°, असि- अतु°,
१२°, सु°, असु>अस्तुकार- पात्रा
६, ३, ६९°, सत्- सत् पा, भवा ३,
२, १२०, सवाम् मीम् २, १, १९°,
११, १, १ [०- १अ°, अर्ष°,
तद्वा(वी)उव°] सरी- नीपु मीम्
८, ३, १४, ✓असु (क्षेपण) अति°,
अधि°, अधिनि°, अधिनिरारि°,
अध्या°, अतु°, अनुपरि°, अतुव°,
अन्वधि°, अर्ष°, अरि°, अभि°,
अभिनि°, अमानि°, अभिसम्°,
अभय°, अर्ष°, आ°, उव°, उव°,
उपनि°, उपसम्°, नि°, निर्°, परा°,
परि°, पशुर्दु°, पशुंवा°, प्र°, प्रधि°,
प्रति°, प्रतिनिर्°, प्रतिम्, प्रतिस्म्°,
वि°, विनि°, विपरि°, व्यति°, व्यव°,
व्युत्°, सनि°, सम्, समनि°

*असु- *असत्- १असत्-
*असित (व्य>) रवा-, *असि-
(वा), अविप्यत्-, १असि, सा-,
असरा, अस्य, अस्य-, अस्यत्-,
अस्यमान, ना-, *असत्- इयु°,
*आसम्, *आसित्-°, *अभारय,
स्या-, असंयुक्त, का- नक्षत्रम्
त°, याचमान°, असंयोग- उव-
ति°, तद्, प्रकृतिदिग्, धुति°, *अ-
संसर्गा (मं-अ) र्य- निवृत्त-
त्य- रवाय मीम् १०, २, १२°,
*अ संसृष्ट(त>)ता- वा वाय
१७, २२°, *अ-संगति- सरित°,
असंग्रह- हेतु°, १असत्-
सत्, अयत् ✓हु पा १, ४, ६३,
२असत्- १नठ°, *असत्-
२सत्, *अ-संदेह- अर्ष°, सजा-
सक्ति°, असंवाद्यमान- ना
शात्री ४, १५ ३°, असंनिधान-
लेपा°, असंनिधि- अर्ष°, असप
(ल>) रता- पायनी°, अस-
पिपट- १पाठ°, असम- १सम्,
असमर्थ- वृष्टि°, स्त्री°, होन्,
असमवाय- चारम्भा°, असमवा-
चिन्- > ०-व- कान्द°, अस-
मासि- ईपद्, *असमारोपित-
समारोपित°, असमास- १धर्त्,
*अ-संपत्ति- ययोःकस्तु°

विभक्ति°, असंप्रत्यय- अर्ष°,
अर्थविशेष°, आकृति°, विशेष°,
असंख्य- शोनिगोत्रमन्त्र°,
शोनिगोत्रम् °, असंभय-
आलम्बन°, उदधासम्, नमस्त्,°
तद्, प्रव°, *अ-संभूति-अदिवा°,
असंमति- अद्या°, शसंभृद्-
नत्-°, असरूप- वा°, *असरूप-
समादेश- पावा १, ३, १; असर्-
पृष्ट°, असर्वलि(त>)ङ्गा°-
समासक °, असर्वविभक्ति°-°,
असचवत्छदोने°, १अस-
यर्ण- कर्ष्य°, असस्थान-°,
*अ-सहन- तद्, असाधु- पा
६ २, १९° [०- सापु°], असा-
मक्षस्य- शन्°, असामर्थ्य-
हेतु°, असि-उवात्, उवयेत्°xx,
*असि विवा (प ध)मि- उवात्,
२असित- १पुम्°, ३रका°°,
*असित- वरार°, असित-
व्य- १वा ✓अस् (क्षेपण) परि द,
असिद्ध- > ०-व- गार्त्,
असिद्धि- र्णा°, १असु°-
-०-सो आश्रि ३, ८, १ ४४,
वैपि १, १५ ५१ [सु- अपेत्°,
असुत्, थावात्°xx], असुत-
१सुत्, *असुभवा°- ०गा.
पाठ ३, ९, ६१, १असुर- १देव°

d) वैप १ द । e) पाठे, ५ ४४ ६ ११ द । c) ५ ४४ ९ पाठ ६, ३, ५० > यनि. द ।

d) सवाम् इति पाठ ? यनि शोष (तु श्री ४) । e) वैप १ अस्व (त्य) स्- द्वि द । f) ५ ४४ ९ यनि
उवयात्कृते द । g) भावे षत् प्र, कर्त्तरे अत् य । h) तात्कालिक निमित्त प्र । i) *वृत्ति इति श्री,
*सस इति प्रपाठ । j) सप दिव १५, ११ असकृत्तया इति पाठे । k) ५ ४५° यनि कवशावने द ।
l) = १अ-विशेष- । m) तत्. । n) ५ ४५१ 'व> ११ द । o) ५ ४५६ 'व्द->यनि द ।
p) ५ ४५० c 'विप । वत् > कव' इति पठनीयम् । q) ५ ४५०-ङ्गा पावा १, ४, १ इति नष्टम् । r) तत् > वत्
इति पाठ । s) ५ ४५० अथवा e टि नेष्टम् । t) अर्ष. (तु भाष्यम्) । u) तत् > पत् । ५ ४५० अथ
पूर्वसकृतेन टि नेष्टम् । v) ५ ४५६ आरोहस इति पाठ ? आरोह इति यनि च शोष (तु श्री १८, ४, ५९) ।
w) पाठ ? मुभावा-> -०गा इति शोष (तु वैप ३ तै ३, ३, १, १ पाठे, ४०, मुमगा इति राजाराम-शोषय,
वैदु भाष्यकृतोऽन्यथाहा) ।

पितृ, पिशाच^{xx}, आसुर- अरु^०
 असूय- > √ असूय > असूयक^०-
 शूद्र^०, असूया- अरु^०, अति^०,
 १अरु^०, पैशुन^०, २असूय(क)-
 निरु^०, असूयास^०, असूयु- अरु^०,
 असूर्यप(सव>)दया^०, असूय-
 १तीक्ष्ण^०, मृत^०, श्वत्^०, *असूय-
 गिय-, *असेवित- सेवित^०,
 *असोमपीथिन्- १द्विपुरव^०,
 *असन्धोमा^० राधो २५ १०, ८^०
 २अस्त- अति^०, उदय^०, यथा^०,
 *अस्तगमन- अधिरोत्थ^०, अस्तम्
 उदय^०, अस्तमन- आदि^०, उ१^०
 *अस्तमनो(म-ठ)द्वय- रक्षा^०,
 अस्तम् √ इ > अस्तम्-अय-उदय^०,
 उ१^०, अस्तम् हुत- अरु^०, अर्थ^०,
 गृहीत^०, प्रथम^०, सम्भवा^०, ३अस्ति-
 अर्थमन्^०, अस्तुत- न^० आधो
 १७, ८, २^०, *अस्तुत यजन्^०-
 पत्रा शोभो ८, २५, १^०, १अस्त्र-
 वीक्ष्ण^०, अस्थान्- तद्^०, अस्थ्या-
 निवृत्त्य- अतुल्य^०, अस्थि-
 अरु^०, आर्द्रविधि^० २उ१^०xx,
 १अस्थि(न)- अरु^०, अरु^०, २अस्थि
 क^०, अस्थिमन्- अरु^०, अस्थ्या
 वि- पद^०, अस्पृश्य- अरु^०,
 *अ-स्फाटि(त>)ता- अस्थि^०,
 १अस्मद्- त्रि^०, पद^०, तुमद्^०,

अस्म- २म^०, २गस्माक- >
 आरमाक- अरु^०, १अहम् आधो
 २ ५, १७^०, आरधो १६, १६, ४^०,
 काय २७, ३^०, हिय १, २९ २^०, माय^०
 १, १५, ६, २, ११, १६, वाय १५,
 १७^०, पाठ १ ५२^० [० अरुम्]
 अहकार- अरु^०, निरु^०, पैशुन्य^०,
 न हिथो १५ ७, १२^०, नौ पाय
 ३, २, ७^०, मद्- मय^०, मग
 १अ^०, *मय- मयि आय २, १०,
 ६^०, १^०मा^०-> मानत्- २पाठ^०,
 अस्मृति- अयत्न^०, स्वयं^०,
 १अस्या इरावतीम्^० शैथ ३
 २, ६, २अ [आस्त्र-> स [आ]
 स जात^०, *अस्त्र- अरु^०,
 अक्षयणा(स य)र्थ^०, *अस्त्रि^०-
 त्रि^०, अस्वतन्त्र, ज्ञा- सर्वकार्य^०,
 शी^०, अस्वर- अरु^० नाति २,
 २, १५, *अ-स्वरादि- स्वरादि^०,
 *अस्यारुहम् वीथो १८, ४५ ११,
 *अ-स्वैरिन्- पद^०
 अह वा २ ४^० [अह न^०] अहत-
 > अहणत्- उपवीर^०, अहन्-
 > अह- अण^०, अणु^०, अ-२^०,
 १अणु^०xx, १अहीन- १अहीन^०,
 उच्च^०, एअह^०, अतुरह^०, नाना^०,
 २अण^०, आहीनिक- ताण^०, अह-
 अण^०, अरु^०, अरु^०, अरु^०xx,

आक्षिप्त- १अरु^०, गो^०, सदा^०,
 अह- २अण^०, १अहीन^०, नि^०xx,
 *अक्षिप्त- तिरु^०, *अह- तिरु^०,
 अह^०, अह- अरु^०, अरु^०,
 एतत्^०, तद्^०xx, अह- गण- पाव
 ८, २, ७० [०ण- सर्व^०], अह-
 ज- अरु^० कौश ५६, १७^०, १अह-
 दि(व>)या^०- वाभिः शोभो
 ८, १५, १२, शैथो १ १० १७,
 २०, शायो १७, ३, ५, आधो ५,
 ७, ४, *अह-मात्रा- आत^०,
 अह- तद्^०, नाना^०, अहोरात्र-
 अरु^०, अरु^०, अहोरात्रायव^०-
 सर्वमान^०, *अह-हन- हवि^०,
 अहानि- शात्र^०, १अहि- १अह-
 ल^०, निरु^०, १अण^०, पाण^०, २शेष^०,
 २अहि(तु-य)- > आहि(तु-य)-
 अहिता^०, अहिता- अरु^०,
 २अहीन- अहोरात्रायव^०, अहुत-
 न वीथ १, १, ३, ६, ७ [अ-
 हुत], अहुताद्- ताव^० माशो २,
 ५, ५ २०, *अहुता(त आ)विन्-
 तस्व^०, *अहुत-अहा^०, अहोम-
 अहिदोम^०, *अहाद^०- अण^०

आ

आ^० हिथो ८, ७, १०^०, शैथो
 उ ३^० [आ हु^०, मा^०]

७) पृ ४६२ यति सख्यासकेत द । ८) पृ ४६२ ०या(या-अ)अ^०>यति द । ९) पृ ४६२ यति
 द । १०) शोष वेव १ स्फाटो दि द । ११) वैप १ द । १२) पृ ४६५ यति सख्यासकेत द । १३) पृ ४६६
 सुराधितं ० दि वेष्टम् । १४) सग आयम १, ८, २ वीथ ३, ४ ३ शोष ३ ५ २ वीथ १, ५, ६ अह- अरु^० इति पाठे ।
 १५) < √ अक्ष (शेषके) । १६) पाठे पृ ४६७ ३ द । १७) पृ ४६७ ३ द । १८) पृ ४६७ यति द ।
 १९) पाठे वैप १ पाठ मम सि ७ १२ २ दि द । २०) पृ ४६८ यति सख्यासकेत द । २१) पाठ (√अस>)
 इया इरावती इति शोष (त २अधिरावती दि) । पृ ६९ ६ पाठे यति, विशेष द । पृ ६९० अरु^० अहीन
 इति नेष्टम् । २२) पृ ४६९ अ^०> यति द । २३) = वीथ- । २४) पृ ४६९ ०या(अ)अ^०>यति द ।
 २५) अ^० इति मूरो । २६) वैप १ परि द । २७) पृ ४७५ अरो^०>यति द । २८) पृ ४७७ अहुत- ताव^०>
 यति द । २९) = अतुल्य । ३०) पृ ४७८ यति द । ३१) पाठ पृ ४७८ ० द । ३२) पृ ४७८ शैथो
 ७, ३ > यति द ।

आ- > आकार- अकार°, अन्°,
 आकारान्त- अन्°, आकारा-
 बाध-°, आकारोप- अन्°
 आ√बल् > *आ कलित- अन्त°,
 आ√काहच् > *आ-काहृशा-
 अन्°, द्वितीव°, निर्°, १२°, ४स°,
 आ√काद् > *कात्- पाग २, ४,
 ३१ [०- १आर्द्र°, वृषिरी°××]
 आ√कुञ्च् > *आ कुञ्च- अह-
 गुण°, आ√कुम् > *कुल-
 आहरजन°, कर्मन्°××, *आकुल-
 वास°- > *सि (२ >) नी- नी
 स्य ६८, २, ४४, *आकुलपाद°-
 अनुप्रासिक°, *आकुलि°- विरत°,
 आ√कृ > *आकार- आर्षचन्द्र°,
 आकुप°××, *आ-कृ- घञ्°,
 आकृत- अन्°, आकृति- अदरुहृत्°,
 अन्°, अन्°××; आकृतिशो-
 रचिति°, आ√कृप् > *कृप°-
 विशदर°, आहृ(इ)°- १रात्°,
 आ√कृ > *आकृ- सर्व°, गुरा°,
 आकीर्ण- अधामिञ्जन°, तदरुधा-
 पद°, आ√कृन्द्, आ (कृन्द्)°,
 *आ(कृ) कतिक्ञि नीपि २, ४, ८,
 अत्र २, ९, ९५, साम १, ५३°,
 आकृन्द् (वस)°- अन्°, *आ-
 कृ-दा(द-२आ)घ- दुर्ग°, *आ-
 कृन्दि- भीत°, आ√कृम् >
 *कृम- सेना°, आकृमण- अरुन्व°,
 ईक्षण°, रवेदि°, आका त- अन्,
 १अध°, प्रकृति°××, आ√कुञ्च्
 > *कुञ्च- अन्धजन°, आक्रोश-
 निन्दा°, परीवाप°, २आक्षय°,

४स°, द्वितीव°, *आ-क्रोशक- अन्°,
 देवश्राद्धण°, राजन्°, आक्रोश-
 समारब्ध°, हीनवर्ण°, *आ क्रोश-
 अन्°, आ√क्षिप् > *आ क्षेप-
 अपामि°, उ°मद्वर्ण°, उतम
 सवर्ण°××, *आ क्षेपण- तद्°
 आक्षय- अरुन्व°, आ√खन् >
 आक्षु- तद्वत्°, ननुल°, विडाल°,
 २३२°, १आक्षर- अन्°, आक्षर-
 स्य°, आ√खिद् > *आ-
 खित्- अन्ते तत्रा १४, ८१,
 आ√रया > *आ-रय°- श्री°,
 आरया- अग्नि°, अग्निहोमसामन्°,
 असेर्षत°××, आरयात्, ता- अन्°,
 ए२आमरुद°, वरप°××, आरयात्-
 पर- अन्°, आरयान- १अगुण°,
 इधभूत°, प्राग्°××, आरयाप-
 अन्°, आरयाविका- आरुवान°,
 आरिद्रपासा- तदादि°
 आ√गच्छ, गम्, *आ जगम्या°
 आग्नि १, १, ४ ३९१, *आ
 (गमह)° शश ३, २, ९,
 आगच्छ- अन्, आगव, ता- अन्°,
 अन्यास°, आगम°××, आगन्तु-
 > *गच्छ- शरीर°, २आगम-
 अधिक°, अन्°, अगुस्वार°××,
 *आगम प्रज्ञा-युति स्मृति विभव-
 नया°, आगमन- अन्तर्°, अ-
 राजन्°, गमन°××, *आ गमपत्-
 *आ गमिष्यत्- अन्°, आग-
 मिन्- वा ३ ३, ३ [१- प्रथम°,
 प्रतर्°] आगत्- अन्°, १हृत्°,
 *आ(ग>)गा°- अन्°, अगार-

-रे भाए ७, ३२:३, द्वि १, १७, ५°
 [१- अग्नि°, अन्तर्°, अग्नि°××],
 आ√गुर् > *गुर- १एम्°, आ-
 √गै > *आ-गान- १काम°
 आघात-, आघातिन्- आ√हृन्
 (परि.) द, आ√घृ > *घार-
 अन्तर्°, १दृत्°, १दृत्तर°,
 तच्छे°××, आ√घ्रा > *घा-
 प्राण- गन्ध°, आघ्रात- गो°,
 आह- अन्°, ओम्°
 आह्वयन- २अह- द.
 आ(आ/अ)प्, ञ्च् > आक-
 > आठे > आठे निप°, आठ
 अन्°, आ√चम् > *चमन-
 १आसन°, १उदन्°, उपवेशन°,
 १उत्°××, *आचमन मन्त्र-
 रानपवनमन्त्र°, आचमनीद-
 अर्थ°, १वाप°°, विष्टर°,
 *आचमनो(न-उ) अयान- व्यपेत-
 रूथान°, आचम्य अन्°, आचान-
 अन्°, सु°, आचाम- विद्यान्°,
 प्रातर्°, रेवण°, आ√चर् >
 *चय- त्रिपदिह°, मैध°, मैकुन°,
 निय°, *आचरणीय- अन्°,
 आचरित- अन्°, अचिष्ट म°××,
 *आचर्य- मैध°, आचा- अन्°,
 अरुन्धतीस्य°, अ चार्थ°××, आ-
 चार्थ- नार्णवप° द्वि १, ६, २२°
 [०- अग्नि°, अर्षवर्त्त°, अन्°××],
 *आचार्य करण- समानन्°,
 आचार्यकुल- > *ए वासिद्- स्त्री
 द्वि १, ८, ९°, *आचार्य सक्प-
 अन्°, आ√चि(चयने)> *चय-

a) पृ ४०६ अन्वय सप्तधाकेत नेह । b) पृ ३ अन्वयि द । c) कय उप = अरन् । d) मैत्रायणीयन्-
 परिशिष्टाऽन्वयतम । e) व्यप । f) उप. कर्त्तरी छ्वा । g) पृ ४०२ अन् त द । h) भाए, नाप ।
 १) पामि वैप १, ६१५ D द । २) कर्त्तरी क प्र (वा ३, ३, ३) । k) पृ ४०८ अ द । l) सवा शी ३, १२,
 ७ आ (वागा) इति पामि । m) पाका पाठ । n) वैप १ द । o) पृ १९१० G द । p) पृ ४९१ c >
 C द । q) पृ ४९४ आपव १, ५, ८ नेष्टम् । r) पामि पृ ४९६ B द । s) पृ ४९५ द्वि १, ८, १० > वनि. द ।

१ मुलं, आचित- पाग ६, २, १४६
 [१- १ अपरिणामं, आढकं x x]
 वा/च्छद् > आच्छद्- पुरीषं,
 *आ-च्छाद्- लोमच्छद्, आच्छाद्-
 अन्, १ उत्तरं, श्रौषधं x x,
 आच्छादित, तः- अन्, वासोयुग्ं,
 आ/च्छिद् > आच्छिद्- अन्
 गौर ४, २, २० [१- सङ्घटं],
 *आच्छिद्-परि(त्र)त्, *आ-
 च्छिद् स्तुक्- अन्
 आ(श)व/ञ्ज्, ञ्ज् > आञ्- >
 आचाञ्- अन्, आञ्जन- अन्तर्,
 अञ्जन्, श्रैश्वर्यं, वहिस्, मन्त्रो-
 कं, आञ्जनमधि-, देआञ्-
 √ञ्ज् (परि)द्, आ/ञ्जि,
 वा(अनन्त)र्, आञ्जिग- वार्णं
 धनं, आञ्जिस्त्-, अञ्-
 √जीव् > *आ जीव, वा- ह्यं,
 शिल्पं, मा/व्हा > *मा- राजन्,
 शूद्रं, वाञ्चान- अन् अनाज्ञातं,
 *आ शापित- अन्तरन्ध्रं, देआञ्ज्य-
 २ अन्तं, अधि, अग्निं, आञ्जु
 शिञ्ज् ४, २, ५, ७,
 आञ्ज्यद्- अन्तं, निर्वप्यं,
 आञ्ज्यन्- आञ्ज्यमाणा-न्,
 आञ्ज्यमान- > *आञ्ज्यमान पात्री-
 परि, आञ्ज्यनिर्वपण- परि-
 रत्नं, आञ्ज्यमाणा- अन्,
 आञ्ज्यं x x, आञ्ज्यमाणात्- उप-
 समावासादिं, आञ्ज्यवित्त- इन्,
 आञ्ज्यवित्तकार- वपरीतवर्षास्तरणं,

आञ्ज्यसन्तुषा^१; *आञ्ज्य-रक्ष-
 नान्नप्रशन्नं, आञ्ज्य स्थाली-
 चरुपात्री, दर्शं, घृन्, आञ्ज्यहोम-
 वपाहोमं, आञ्ज्यवाधि-
 अनादिष्, *आञ्जवा(जप-२४)वा-
 स्नानं, आञ्ज्याहुति- आचारं,
 प्र यक्षितं
 *आटोप- शरीरं, *आढम्बर- अन्
 आढक- अन्, आढय- अन्, इन्द्र-
 नीलवह्दारं, तारागणं, हुद्, बहुं x x
 आ/तड्क् > भातड्- राजन्,
 आ/तच्, ङ्च् > *आ तच्-
 अन्, *आ-तड्क्व- अन्, तत्, १
 शीतं, घृन्, आतड्य अन्,
 आतड्यन्- हविर्, आ/तन्,
 आतड्य पा ७, २, ६४, आतड-
 अन्, सुं; भातान- एवाहं,
 सामन्, आ/तप् > ०प-
 १ आर्, टाया, १ बालं, रोगं x x,
 आतपत्र- अन्, आति- पद्,
 देआतुर, रा- अन्, वर्त्यं,
 १ कामं, कुपणं x x, आ/तृद्,
 आतृत्ति, *आ तर्द्- १ अर्, *
 *आ तर्द्- अन्तं, आतृण, पण-
 अन्, स्वयम्, आत्ति- आ/दो
 (अवस्यन्ते) परि ६, आत्मन्-
 अधि, अनिद्यानलयं, अग्निं x x,
 आत्म(न्)- अन्तकारं, अर्वाजा,
 अन्तकार्यं, उष्टादन्तं x x,
 *आत्मिका- दाहं, आत्मगुण-
 वर्णं, आत्मज्ञ- सर्वज्ञं, आत्मने-
 पद्- परस्मैपद्, *आत्मनेपद्-

निमित्त- अन्, आत्मनेभा [प],
 पा- पा ६, ३, ५ [१- वरुं],
 आत्मनिर्जयिन्- अनिदातं; आत्म-
 स्तयं- पैशुग्यं, आत्मस्तर-
 यनार्थ- धेनं ह्यि २, ४,
 २४, *आत्मामिमर्शन- रीहं,
 *आत्मे(म-इ)एकं- अन्तर्,
 *आत्म्य अन्, *आत्मय-
 २, आत्रेथी दधी- अन्, आत्रेथी-नि-
 धय ३८८.
 आ/दा > भाद- इन्, १ आदान-
 अन्तं, १ अदि, अन्तयन्,
 आदिं x x, भादापन- सुन्, भादाप-
 *आ दापन् पुनर्, भादापिन्-
 अन्तं, सुलेनं, १ हस्तं, आदि-
 १ अन्तं, अन्तं, १ अन्तं, अन्तं,
 पुनर् x x, *आदि(क)- अग्निं,
 अन्तयन्- अन्, इति x x, आदि-
 कर्मन्- भावं, *आदि-निधनं-
 अन्, *आदि-पति- १ लो, *आदि-
 मन्त निधनं- अन्, *आदि-मन्त्र-
 यतुर्वेदं, २ अन्त, धा- अन्तं,
 अन्तयान्तेयं, अन् x x, *आदि-
 तृच- पदात्तं, आदि-त- वापम
 ३ अन्तं [१- अन्तयं, अन्,
 आदि x x], आदिदात्त- अन्,
 अन्तयन्, आन्तयन्- १ अन्तं,
 अन्तयन्, आन्तयन्- अन्तयं, अ-
 दित्य, म्या- पा ४, १, ८५ [१-
 आन्तयन्], ऐन्द्राग्निं, अन्तं x x,
 आदि-परिधि- २ मीनाम् या १४,
 १३, आदि-व्रत- गोदानं, अन्,

१) मूलो क्त । अन् १ नेष्टम् । ४) पाले वैप २, ३६. आ 'अन्तय' तां १, ५, १९ टि ३ ।
 ८) ४ ४१९१- > यनि ३ । ८) कर्तरी ह्य । ९) ४ ५०० द्राथी ४, ५, ५ > यनि ३ । १) ४ ५०२ 'क्त'
 > यनि ३ । २) वाप ह्यि वा २, ४ पा 'पुरीषे' प्रति (तु आ/च्छ, वं √च्छना 'पुरीषे') । ३) कर्तरी
 मन् । यतो वयन्ते २ ति । (तु. सा [दे. ४ ३६६] वैठ एव प्र = अि- इति क्त्वा अतिक्रमे प्र इति) ।
 ४) तु पा. । ५) इ- पाया पाति । ६) ४ ५०० 'क्' - > यनि. । ७) समाहारे द्वस । ८) ४ ५०९
 अन् ३३८ > यनि ३ । ९) = अन्तयली । १०) द्वस । ११) ४ ५१५ या १४, १२, १३ > यनि ३ ।

आदिप्य पाधान- अरुण्टण
 आ/दिश् > दिष्ट- क्त°,
 १ए०, नित्य°, रथा°, वाक्त्°,
 आदेश- इष्ट°, इत्°, इनेव°xx,
 आदेशान्- रथानि°, आदेशादि-
 इत्°, आदेशा- देवता°, प्रत्°,
 आदेशम् वाग्त्°, आ/दीप् >
 दीपन- शहन°, आदीप्त- सन्त्,
 वीथी ९, १८-८, द्विष्ट १, १६,
 १०; वीत् ८७, ३० [स-
 दलित्वाभि°] आ/दृ (आदरे)
 > आदर-आदरग- इत्°, आदर-
 इत्°, १देव°, *मादर्य इत्°,
 आ/दृम् > रमादृश- इति°,
 उदृम्मा°, यम्°, २दृत्°, धृत्°
 *आ/दो (अदत्तउदने) > आ-ति-
 इत्°
 आ/धा, आधत्त जग २२ १५१°
 आध्याय- पुनर्°, आधात- भाति°,
 आधसथ्य°, आह्वनीय°xx, आधा
 य (-क) - गर्भ°, आधातमप्र-
 तत्त्°, आधास्यमान- पुनर्°,
 आधि- विधि°, कुत्°, आधेय,
 या- अग्नि°, तृतीया°, पुनर्°,
 आहित, ता- अग्नि°, अत्°, क्त°,
 यथा°, रमाहित्वाति- महाराज°,
 १सुत्°, संवत्सर°, सर्व°, आधायय°
 पादा, यावाय ४ १, १५३, आधी°-
 क्त°, आ/धु, धू > आधवचन-
 > शीय- द्रोणकला°, कृतकृत्°,
 आधाव- इत्°, *आधाव द्युति-
 पर्याति°, आ/धु > अधार- अत्°

विम्°, रैतन्य°, पाणि°, १मूत्°,
 इत्°, आधारसतिष्- -मिधम्
 वीथी ५, ७ ११°, *आ-धारण-
 १रत्°, आ/धुम्, आधयते अअ
 द ३३°, आधये°, *आ-दृष्ट, टा-,
 *आ उव्य, व्या- अत्°, आ/धये
 > आधात- अत्°, आधत्-
 रआनत्- (> लक), *आनत्-
 गत्°, इत्°, इत्°xx, आ/नन्द्
 > नन्द्- चित्°, नित्य°, निद्°,
 परत्°, आ/नम् > आनत्-
 अत्°, *आ-नाम्-सार्थ°, आनवो°
 आधयो २१, ९, १५ वायो ३, २,
 २, १५, द्विथी १६, ५, १३, *आ-
 ति/नी > मानि नयन- रआ
 सान°, आ/नी > नयन-
 १उदृत्°, उदपात्°, पुत्°xx, *आ-
 नयन प्ररत्न- रनी वीथी ८, १२
 ३, आनीक- इनीक- (वरि) द्र,
 *आ/नुद् > आ नुद्- इत्°, *आ
 (आ-म)नुयाज-प्रसव°- येन
 शायी ४ ७, ३°, *आन्तराहृति°-
 (> तापन- पा) पत् २, ४, ६१
 *आप् अधि°, अतु°, अतुम्, अतुलम्,
 अग्नि°, अविम्, अत्°, उदृत्°, उप°,
 उपसम्, परि°, परिसम्, इ°, वि°,
 विम्, सम्, सन्°, सपरि°, सत्°,
 *आप्- रीति°, *आप- उद्°,
 *आपक- १आपन°, *१आप-
 इत्°, १आपवितु°, *आपि°-
 १देव°, *आपिन्- वृत्ति°, आप्त, सा
 इत्°, पादि°क°, वाक्त्°, सु°, आप्त-

काम- अत्°, *आप्तवत्-, आप्तव्य-,
 आति- अधिराज्य°, त्रिराज°,
 दत्तराज°xx, १आप्त्- > आप्त्-
 याम- अश्रेयम्, वाप्त्म्, *आप्त्-,
 *आप्त्वत्-, *आप्त्, २आप्त्,
 प्या- अत्°, *म प्यमान-, इप्त्वत्-
 अत्°, ईप्सतो-, *ईप्सता- तृत्°,
 इप्सा- रआप्तिर°, तद्°, प्रजा-
 पति°xx, इप्सित, ता- इत्°,
 १उभय°, *ईप्सित इ- रिवा°,
 *ईप्सत्-, इप्सु- अर्थ°, अस्मन्°,
 १काम°, १उय°, १द्वय°, २धर्म°xx
 रआप्- *अप् (परि) द्र
 रआप°- रआपक°-, रआपक-
 *इ (परि) द्र, *आ/पच् >
 १आपाक- अत्°, आ/पच् >
 आप°- अयोत्सव°, धृत्°, *आ
 पतिन्- इत्य° र°, आ/पत्
 (पति), (आ)पसव > ता कृष् ८,
 १५१, आ/पद् > आपति-
 इत्°, अत्तरत्°, अर्थ°, उत्तम°xx,
 आपद्- अत्°, १इत्त°, १इत्, वाक्त्°,
 आपत्मान- अत्°, आपत्, आ-
 इत्त्°, इत्°, गावरीतामत्°xx,
 *आ वादन- सुत्°, *आ पादिन्-
 कर्त्°, रआपन-, रआपयत्-,
 आपवितुम्, रआपवितु-
 *इ (परि) द्र, आपनर्प्यपृ-
 परोक्ष°, प्रवक्ष°, आपस्तम्-
 १मैत्र°
 रआपाक°-, आपाघ- अत्°, रआ-
 पि°, आपित- *इ (परि) द्र

a) वामे पृ ५२० अ द । b) अय । तु पागम । c) वैप १ द । d) पृ ५२३ वीथी ५ ७, १
 > वनि द्र । e) पृ ५२३ अ अ ६, २५ > वनि द्र । f) पृ ५२३ °c > b द । g) पृ ५२४ ० वनि सत्त्वो
 निर्दल द । h) वैप ३ द । i) पृ ५२३ वनि सत्त्वात्वेत द । j) कर्त्तरि कृत् (वैप १ द) । k) अत्.
 > पय । l) पृ १९१ अय अतुवा° > वनि द्र । m) अय । n) पृ ५२६ वनि सत्त्वात्वेत द । o) पृ
 २३९, ५२० वनि सत्त्वात्वेत द । p) पृ ५२७ वनि सत्त्वात्वेत द । q) पृ ५२९ वनि सत्त्वात्वेत द ।
 r) पृ ५२९ रत्न° > वनि द्र ।

आपिन्- √आप् (परि) द्र, आ-
 √पीद् > *आ पीड- कुट्टमत्,
 आ√वृप् > *आ-वृत्त-आठक°,
 तुप°, आर्षमाण-> ण पद्य-
 उदगमत्° आ०गोवि°, १आप्य
 √आप (परि) द्र, २आप्य,
 ३आप्य- √र (परि) द्र, आ-
 √प्याय् > २आप्यापन- जप°,
 प्रेत°, भक्षणे°, २वपद्रमरान्त°,
 शोम°, आप्यायित- भक्षित°,
 आ√मी > मापी- आधर°, वापो-
 धत°, आ√प्लु > आप्लवन-
 आस्य°, आप्लवमान- अन्°,
 आप्लुत- १उदक°, *आप्लुते (ई)
 क्षम- प्रा-तचित°

आ√फण् > आपनी° पा ७,४,६५^३

आ√वध् > आवद्-दम्, आवद्
 कश्च- इर औष १,५,१५

आ√याघ् > याघ- १आकार°आ-
 शङ्, उषान्त°x, *आ याघा-उर्ष°

आ√मह् (=मज सेवने), आ
 मक्षम् (२म°) आशी ४,१३,२१,
 आ√भञ् आभञ् > आभ्रपा ८,
 १५, (शा) मज > वा तेषा ३, ८,
 *आ भञ्- निः, आ√मा >
 *मा-मा- अर्क°, अशोचुमुम्°,
 इ-रनीत्°x, आ√माप् >
 *आ मापित- सामो, *आ (आ-
 स) मि √हु > आमि हवन-
 औत्सरी°, आमु- अन्°,
 *आ√भुज् (औत्सरे) > आ-
 भोग- भुज°, आ√भू > भा-
 यु°, आभूतसङ्घ- यानत्,

आ√भू, (शा)मानि काशीस ५
 १५१, आभरण- वन्व°°, गुण°x
 १आम- अमे आमिश् २ ३, ३ ३३ ३,
 [म-विहित°] *आम मृष्ट-निरुप°
 २आम- > √आमि > आमव-
 अक्षि°, उन्°, अन्तर्°, १क्षव°,
 पृष्टि°, रिष्टि°, शीर्ष°, शीर्षामपादि°,
 आम(य) > वापिन्- अन्°, जशोर्,
 *आमयत्- अन्°, ३आम-
 √अम् (परि) द्र, आ√मन्,
 म्ना > आमाग- अन्°, १देव°,
 द्वि°x, आमान- अन्°, अन-
 तर्°, अविशो°x, आमाव-
 अवेद°, २धर्म°, म-त्र°, यजुर्दे°,
 यथा°, सु°, *आम्वाय प्रणिधि-यथा°
 आ√मन्त्रि (<मन्त्र-) > आ-
 म-त्रण- मन्त्र°, २विधि°, आ-
 मन्त्रित- अन्°, आम्वात°,
 १एव°x, *आमन्त्रित मरक-
 पक्षी°, आमन्त्रय अन्°, १आम-
 मांस पन्चम्° वाध १४ २७^६,
 आमय- प्रष्ट २आम- द्र,
 आमलक- अर्द्ध°, म-य°, तैल°,
 आमही(य) > या- -यात् काशी
 १०,९,८^६, √आमि २आम- द्र,
 आ√मि > आमिवा, न > ना-
 ने°, आमिजा°- १दधि°, १यन्°,
 मैत्रावरुण°, रीत्रणी°x, आ
 मिन्- √अम् (परि) द्र, आ
 मिप- उष्णीष°, एष°, १तृण°,
 निद्, आमुष्यपुत्रिका°, *आ
 √सृ > आसृत्- अन्°, *आ
 √सृज् > आसृज- हीन्,

आम्भृणी- वाक्°, आम्भ- वरज°,
 वृम्भ°, १शरीरिण°, आ √भ्रेह् >
 आम्भित- अन्°, इवस्त्र°,
 २राम्भ°, प्र°
 १आय- २आय-, आयक- √र
 (परि) द्र, आ√यत् > आयतन-
 अमि°, अमिप्राश°, अन्°, अन्तरिक्ष°x,
 आयत, ता- ग्रह°, १तद्गुण°, आ-
 √यम् > आयत, ता-, अक्षि-
 मात्र°, १उत्तर°, उदन्°, २केमान्त°,
 चतुर्विधःपुङ्ख°x, *आयता(त-अ)
 सु- अन्°, आयाम- अर्थ°, प्रथ-
 पद्यद°x, *आयाम-विस्तार°-
 रथ°, आ√यस् > आयात-
 अन्°, अक्षि°, आयिन्- √र
 (परि) द्र, २आयु- अति°,
 अदन्°, दीर्घ°, विश°, २रुद्ध°,
 सर्व°, ३आयु- √र (परि) द्र,
 आ √युज् > आयुज- अन्°,
 *आ योग- दिग्वाह°, द्वादश°,
 आयुध- अन्°, १अध°, इन्°,
 ऐन्द्रवाण°x आयुधामार- धा-य-
 कोष्ठ°, आयुस्- यु. मार २,८,
 ६^{१३} [स्- अक्षुष°, अति°, अन्°,
 अल°, औष्°x], आयुष्य- अन्°,
 आयुष्य°, ऐन्द्रात्, १मैत्र्यम्°, मैत्रा-
 यनन°, आयिन्°
 आ(आ√य,अ), ह, रुद्धे > आर्ष, र्ता-
 अन्°, उष्ण°, कुट्ट°, सुतृष्णा°x,
 *आर्ष सयोग- निवाह°, आर्षेति-
 अन्°, आर्षि- अन्°, आपद्°, यज्ञ°,
 सामप्रदाशेह°, हरिष्°, आ√रम्,
 रम् > रथ- अन्°, आरम्भुम्°,

a) पृ ५२९ आ√र (श्रीती) ह्यत्र सुदानितचर° आरण, अस्ति इति द्विपद शोध (हु ०, २।श्री १, १५, १६ व)। b) पृ ५३२ पा ७,४,५६ > वनि द्र। c) वस। चद्द इति मैत्रे। d) पाठ १ यनि. शोष। e) वैग १ द। f) आमय, अ-सेण इति शोध (हु ५५७)। g) पृ ५३४ सस्य सम् इति मेघ्व। h) धमे पृ ५३६ h द। i) पृ ५३६ h >। द। j) पृ ५३६ h >। द। k) पृ ५३७ °व्यति° > वनि द्र। l) पृ ५३७, ७८४ यनि सत्वाशेवत द। m) ह्य। n) धमे पृ २६०२ ८ द। o) पृ ५४४ °स्-> वनि द्र।

भारममाण- , आरभ्य, *आ-रभ्य-
अन्, आरम्भ- अभिहोत्रं, अन् xx,
*आरम्भ निर्वृत्ति- फलं, *आर-
म्भा (म्भ-अ) वसान- द्रव्यं,
आरम्भम- अन्, आदित्यं,
१इडां xx, आरम्भणीय- प्राव-
लीयं, *आ-रभिन्- अन्, पूर्वं

आ√रम् > *आ-रमण- क्रम तद्,
आरमन्- अन्, आराम- पूषं,
तटाणं, देवर्षिं xx, आ√राष्
> धन- देवता, *आ-राध
यन्- अन्, आरि (रु >) जी-
√रु (परि) द, आ√ह >
भारत- पतिनचाण्डालं, २३१ं,
आ√रुच > *रोक- अन्,
आ√रुह, *आरोहं आशिशु ३,
८, २ ४४, वीपि १, १५ ५१,
*आरुह- गर्तं, *आ-रुह-
स्वर्गं, आरुह- १प्र११, आरुहं,
रुहवां xx, आरुहपति-तरु११,
*आ-रोपक- , *आ-रोपवित्- १३६ं,
*आ रोपित- > *त कार्य- अन्,
आरोह- १अहं वधा, २वरं xx,
आरोहण- १अहं, आरोहणं xx,
आरोहणाचरोहण- विपमं, आरोहण-
अन्, आरोहिन- युक्तं, आरो-
हिणो- गर्तं

२ आर्च- √रुच (परि) द
आर्त्ता- दृष्टी, ५नुयं, १५५२२,
आर्त्ता-ग्या ०, *आर्त्त- इद्,
२ आर्त्तं द्रि- अन्, अन्, शुभं,
*आर्त्त-क मुत्त- अन्, आर्त्तं
गोमय- शोभां, आर्त्तपाद- अन्,
१ आर्त्तं वस- १११, *आर्त्तं वण-

धुन्, *आर्त्त-शोक- शोभां, *आ-
र्त्त-पुत्रं- २, आर्त्तं > द्रि-
आर्त्तघातु- आर्त्तघातुं, आर्त्तं,
य- -यं आशी ६, २, १११ [१-
अन्, गृहं], आर्त्तजन- दणमानं

आ√लम्,म्भु > *लम्भ- , *लम्भ
अन्, *लम्भ- अन्, आलम्भं,
५५० xx, *लम्भन- शोभनं, एतुं,
प्रखणं xx, *आ-लम्भु (क) क-
अन्, आ√लम्भु > *आ-लम्भ-
अन् निद्, आ√लिस् >
*लिङ्ग- अन्, *आ लिङ्गि-
(त) ता- अपरिमितं, नि,
१५०, आ√लिङ्ग > *लुन-
अन्, आ√लिप्,म्भु > *ले-
पन- > *आलेपना (न आ) दि-
वर्षं, आ√ली > आलप-
अन्, १५३, केशवं xx, *आ-
√लुच > *लोचन- अन्

आचटिव- परमं, *आचम्यं
माय १, १०, ८, १२, ३, आ√चप्,
आचप पावा ६ ४, १२०, आ
चपन- १अहं, उरुवभस्मन्, उतर-
वेदिं xx आचप- १अहं पदहस्तो
दियं, ओष्य अन्, आ√चल्
(सचरणे) > आचलि, ली- पदं,
कन्, आ√चस् (निवासे) >
*चस्य- अन् एषं, औषधं xx,
आचस्य- आहवनीयं, १ आर्त्त-
५६०, आचस-अन्, आ√चम् >
*वह हा- अन्, अमुद्दि, अहितं,
वहेरुं xx, आचान- अन्, देवता,
ब्रेतं, वधा, *आ वाहविवा अन्,
आवाहित, ता- अन् वधा, आ

वाह अन्, शोढ- वधा, १५,
शोढिवस्- वासम् माधी १, ३, ४,
२१, *आचान- १अहं, आ-
√विद् (ज्ञाने) > आवेदन- २तो
वितं, आ√वि (<व्य) घू >
आरिह- अहं वीधी ७, ४४ ५,
द्राधी १२, १, १९, लाधी ४, ९,
१३, पाय १, ३, ८, वीए १,
२, ३६, आचिल- अन्, आ
√विष् > *विष्- रोगं,
*वध- १गुणं, तद्, २धर्मं, सु,
आचिस् अन्, आचिस् √ह >
*आचिस् गाव- योगं, आचिस्/रु
> *आचिस् वरग- दन्तं, *आ-
चिस् जगजुलेपन- अन्, आ-
चीत- आ√ये (परि) द, आ-
√वृ (वरणे) > १आनृत-
१हत्तं, आ√वृ (आच्छादने) >
*परण- निद्, २आनृत- अन्,
दीर्घवृत्तं, रचयन्, १वात्,
आ√वृज् > *वर्जित, ता- एन्-
पाणिं, शूद्रा *वि, शूद्रा-
वि, शूद्रकन्, *आ वृत्- सु-
आ√वृत् > *वर्त्त- अहं, वर्त्तं,
१इहं, चकं, तिमिं xx, आचरन्-
१अन्, आचरन्मान- त्रिषदादि,
आचरन्पत्- अन्, *आ वर्त्ति-
गतदहनं, *आ-वर्त्ति(त) ता-
सहं, २आनृत- अभिहोत्रं, अन्,
अपादावा xx, आनृत, ता- अन्,
असत्, अहं, आचरन् xx,
आवृत्ति- अन्, इति, एव-
कर्मन् xx, ३आनृत अन्, पुनर्दं,
आ√वृष् > *आ वृष्- देवं,

a) पृ २८४० १ द । b) कर्त्तृ इत् । c) पृ ५४० १ विं > यनि द । d) वैप २, ३ म द ।
e) पृ १६०१ ८ द । f) पृ ५४८ १ दि- > यनि द । g) एता आचम २, ३, ५ प्रह अचम
इति पाठे । h) एता वाधी १, ३ ५, १६ कवि इति, माधी १, २, १, ९ वाधी १, ३, ४, ५ पद्वन्तम् इति च पाठे ।
i) पृ ५५६ यनि द । j) यथावर्थं पृ १५५१ h, i, j डि द । k) वैप १ द । l) उव आवे इत् ।
वैप-अ-१३

आ √वृश्च्, वृश्च् > भाट्टि^१ शी ८, २१ १, भाष्यन- > *भाष्यनया होम- शक १।१११०, भाष्यन- , *भाष्यनय- महाभारत- सप्तिक, *भा वृष्टि^२- अर्, आ √वे > भाषाय- अवहार^३, १ आ वृ^४, २ आन्य- √श्व (परि) ६, *आ √वे > भा वीत- प्राचीन^५ १ आन- √श्व (व्याप्ती) परि ३ २ आश- √श्व (मोनेन) परि ३ आ √वंच् > १ आना- अयद्, जीवन्, धनं निद्^६xx, आ √शदृक् > *शद्धा- अयोग धम, अट्टि^७, उपपद्यद्, मरु^८, विभर, आ √शस् > *शसन- उवद्, २ आशा- अति, अय^९, आ √शास् > भाषिस- इद्, अनिदिष्ट^{१०}, वायद्, आःमन्^{११}xx, भाशीर- (क)- अन्, यन्, *आ शीर- वादिद्- अन्, भाशी स्तोम- षोदश, भाशिर्- गो, ३ गन्, हु, आ √शी > १ आशय- २ आम, १ उज, ५ न महन्, २ आशय- एङ्गपाल^{१२} आ √श्ट, श्टु (अन्वे) ^{१३}, आ अय यतम् ऋषा ९ ४४^{१४} *आ श्राय- स्वविषय, भाश्राय- आदित्य, उपपेय, प्रर^{१५} मारती, *आ श्राय-^{१६} श्रोत्रायद्, भाश्रायवत्- अन् भाश्रायि- > *भाश्रायिता (त आदि- मिन्वाहुनि, भाश्राय- प्रणीता^{१७}, आश्रय- > *भाश्रया (मं ऋ) श्रुयय अनिशस्त दर्शन^{१८}

आश्रम- अरम- (परि) ६, आ √श्रम् > *श्रम- अणस्य, १ उज, १ ए, ५ १^{१९}xx, आ √श्रा > *भा श्रन- अयो- रित्, आ √श्रि > *श्रय- अरार, अरर, १ अ, अद्मु^{२०}xx, भाश्रित्, ता- अन्, ५ १, १ तद्- युक्त^{२१}xx, भाश्रिय इ, आ √श्रिल्प् > *श्रिल्लपगण- शी^{२२}, भाश्रेय, पा- वा^{२३} [पा- अर्थ] ३ आश्रय- २ अश- (परि) ६ √आस्य श्रि^{२४}, षु^{२५}, २ वद्^{२६}xx, *भासन-, १ अ सन्- १ अम, अन्, ३ अशन, अद्मु^{२७}xx, *भासन-योग- निहित- अन्, १ न, भासनशयन-, *भासन-रश्म- शला^{२८}, *भासना(न-अ) नुचरण- १ न्य^{२९}, *भासना(न-अ) ऋ- १ न्यैश्रैवा १८३, भासित-, *भासिद्-, भासोन, ना- तथा, विष्ट^{३०}, सु, १ सु, *भास्य, ४ भास्य, स्वा- उन् ३ आस- √अस् (सेभो) परि ३ आसंस्करसे^{३१} शी १०, १५, ६ आसंगत्य- अत्तत्- ६ आ √सञ्, ञ्च् > *सक, का- सनापण्ड^{३२}, भासकि- कृत्या, भा सद्- १ उज, ५ चिन्, भासजन- अयव^{३३}, १ उज, आ √सद् *भासीदताम् या ८, ११^{३४}, *भा- सति- तद्, प्रकृतिवाक्, *भा सद्- सु, आसज- अन्, अयव^{३५}, यपा, भासाद्- पा, भासादन-

अरदान^{३६}, ३ भाज्य, उद्ग^{३७}xx, भासादित- भाष्य^{३८}, १ २ आ सन्- , भासन्- श्रिपति^{३९}, भासार्थ, इद्ग^{४०}xx, भासन्दी (क)-यत्, *भासन्दी स्व-भोजा- अगिमुव^{४१}, आसम् √ इद् (क्ष- षे) परि ६, *आसार- १ इर्ग, आ √सिच् > *सिक्- १ पट, भासेर- अन्, भासेचन- १ उद, उप रेष्टा, शीर^{४२}xx, आ √सु (अभिषे) > *भा सव- १ उरन्, सधिवमस, सुरा, भासुति- इत्, शीम्, आसुरादिति- (> *श- तायन- वा) पा २, ४, ६ १, आ √सेय > *भा सेवन- अन्, *भा सेव्यमान- व्याप्यमान, भास्तामिरावतीम्^{४३} भा २ ६, १ ६, आ √स्तु > भास्ताव- चावाल, बहिष्पदना^{४४}, शानि^{४५}, आ √स्तु स्तु > ३ भास्तग- अद्, १ कृष्णायिन, निर्वण^{४६}xx, अर-तीर्ण, णि- पठ, सु^{४७} आ √स्या, भा तिष्ठ > भा आश्री ६ ४, १ ०, १, (भा) तिष्ठ > भा आश्री ८, ७, २ ३ xx, शी, भास्या- अन्यद्, भासित- अन्वद्, साय, आ √सृष्ट् > *सृष्ट- अन् आ √स्फुद् > *स्फोद- यमान, *भा स्फोटि (त) > ता- स्फेडिता, आस्य √भास् (परि) ६, १ आस्य- अन्, अमन्, श्रेष्ठ, केश^{४८}xx, *भास्य नयन- निमीळि, *आस्य नत्र वाणि पाद-

१) वृ ष्य १ तिष्ठि । २) प्रास । ३) वृ ५६० गनि अरवापन द । ४) वृ ५६४ हु पा १ ४ ४० अदि द । ५) गार । ६) शोट महु १ अतुकरणम् । ७) पथे वृ ५४० हु द । ८) वृ ५६६ -पा > गनि द । ९) वरांको वृद् प्र । १०) वस । ११) पथे वै १ परि अ क मे १, १, १ टि द । १२) वृ ५६८ गनि द । १३) वै १, ६०० ह द । १४) वृ ५०० भासव- > गनि द । १५) अय । १६) वृ २४४० ० द ।

३२क°, 'आस्य-अयल- १तुल्य°,
३स°, स्थान°, 'आस्य विहरण-
अन्°, ३आ(स्व>)स्या- ✓अस्
(लोभो) परि द्र, ४आस्य, स्या-
✓आस् (परि) द्र, आ✓स्वु>
'साव- घृतक्षीरपत्र°, 'आ-
साधित- १रत्नदन्°, आ✓स्वद
>'आ स्वाद- मधुर°

✓आह् चतु°, २उद्°, निर°,
परि°, प्र°, प्रति°, वि°, 'आह-
पुरण°, आ✓हन् >आधा(व>)
ट- २दाह°, आधा (दि>) टी-
डी°, 'आ-धान- मेरी°, रिधा°,
'आ वातिन्- दन्त°, आहन्-
अन्°, अ हत- अन्°, अनमिष्व°
ल°, विषम°, १अह्, 'आहव-
राजम(व्>)व्वा- विवर°, आ-
ह्वन- अन्°, आहनस्->'नस्य-
अन्°, आ हर- आ✓ह (परि)
द्र, 'आहस्' जेय १. ८ १०

'आहा'- डुर°, आहारम् आ-
✓ह (परि) द्र, आहीनिक-
अहन्- द्र, आ✓हु > 'हरन-
पृत्, अ हवनीय- आहीनीय°,
१एव°, १गर्हपत्य°, गृहपति°××,
१आहुत, ता- 'त * आपथी १४,
३०, ४', हिभी १५, ७, १९ [त-
अर्धन्वन्°, पृत्, १९९, ११°]
आहुति, ती- अक्षतसकु°, आक्षत°,
अभिदीक्षा°, अभिदोत्र°××, आहुति-
गण- द्विप्रवृत्ति°, आहृत-, आहृय

प्रसृ था✓हे द्र, आ✓हु >'आ-
हर्- स्वातिम्°, आहरण- अन्°,
एकोत्सुक°, क्षेत्रोदन°××, आहरत्-
अन्°, आहर्तु- समार°, आहार- अन्°,
अन्°, उद्°××, 'अ हारम् पुनर्°,
आहार्य°, र्वा- अन्°, आहत, ता-
१अवर्ग°, अन्°, अत-नेवासिन्°××,
'आ हति- उक्थ°, इव°, आ-
हिवमाण- अन्°, आहो उत°
'आहर्- १असत्य°, आ-
हर्क- तैगरीय°, आ✓हे, (गा)
हुवे मथा १७, ३४, आहार-
चतुर्°, १श्रेण°, निष्कृत्°, १९अन्°,
आहार-, आहृय अन्°, 'आ-ह-
वर्षा°, 'आ ह्वय'- चक°, आह्वान-
अन्° १देव°, नामन्°××, 'आह्वानी-
१ऊर्वा°

इ

इ- आ°, ए°, इकार- अकार°, १आ-
वार°, कृत्°, 'इकारो(र-उ)कार-
प्रकृति- अन्°, इ-अर्ध-पर- -ने°,
'इच(इ-अ)- सस्य पा ६, ४, १४८,
✓इ, एमि हिभी ६, ७, ८°
[अच्छ, च्छा°, अति°, अनिपरि°,
अधि°, अधिपरि°, अनु°××],
१अर्ध'- अन्°, डुर°, ४त°, 'अयव-
'अयती- अन्°, अयन- अन्°
ताथी १०, १३, ४, -ने निम् १०,
८ २८ [न- अमिष्टोम°, अमिष्टोत्र°,
१अन्°, अत्रिसाम्°, अदीपित°××].

अयनी°- अन्वस°, तस°, तिच्छ°
१गिन्°, अयिन्-, 'इवापक-, 'इआ-
पत- 'इआपयत्-, 'आपविभुम्,
'इआपयिन्-, 'आपित-, 'अप्य,
'इवापय- 'इआप-, 'आयम्,
'आपिन्- यितम् [न्-१तन्त्र°,
उह°, ११षा°], 'इआपु-, 'हव-
अर्थ°, सम्°, इह, ता- उन्निद्र
' ति°, डुर°, अहर्°, सु°, स°,
'इति- डुर°, 'इत्य, इत्य,
स्वा- अनभ्यासम्°, 'इवद-
प्राहर्°, १ह्वर°-इवरी-, 'इव-,
'इववत्-, 'इवमान-, इवान, ना-,
'इवमान-, 'इविवस्-, 'ए-वे,
'एतवे, एतव्य, स्या-, 'एतुम्,
'एत्- पुरत्°, एतोम् (), 'एप-,
१एव- डुर°, एववा- >'एवानस्-,
१एववत्-, 'एव्यन्ती-, 'एव्य-
माण-, यद्-, यती-

इलु- पायवा ५, ४, ३° [लु-
अपन°], इश्वाकु- >'इश्वाकु-
प्रभृति- राक्षन्°
✓इहम् १उद्°, इह्य-, इहान-,
'इहपव-, 'इहि (त>)ता-,
इह्य-, 'इह्या(अव-अ)व- अन्°,
'इह्युद्'- शोषिदार°, सुद्°,
इह्युदी'- पाय ४, ३, १६२°
✓इच्छ, इप अधि°, अनु°, अभि°
परि°, प्रात°, वि°, इच्छन्-, 'अती-
अन्°, इच्छा- अन्°, आहवपुरा°,
गौतम°, तद्°××, इच्छार्थ- अन्°,

a) पाठे पृ १-३४ इ द्र । b) वाट १ आहस्पत्यम् इति शेष. (तु सत्र. मत्रा १, ५, १४, गोय २, ८,
१४ सस्वर्तुर् अनुवादे दि च, वैदु. भाष्यम् अत्रयावद्म्) । c) वैप १ द्र । d) पृ ५०५ वनि द्र ।
e) सपा. वैप १ वाट ३५, ५ अहुत इति पाठे । f) पृ ४०७ अहुत > वनि शेषे (तु हिभी). g) कर्त्तरि
कृत् । h) = वृत् विशेषः । i) उप. = आह्वान- । j) पृ ५०१ र > वनि द्र । k) पृ ५०१ श > ।
द्र. । l) कर्त्तरि कृत् । m) पाठे वैप १ इत्येवम् तै २, ४ ७१ दि द्र । n) पृ ५०२ वनि. सपयाधेय द्र ।
o) पृ ५०३ वनि सप्यामनेन द्र । p) पृ ५०३ पा ५ ४, ३ > वनि द्र. । q) = वृत् विशेषः, तत्रापु वा ।
r) स्त्री टीप् प्र. (वा ४, १, ४१) । s) पृ ५०४ वनि द्र ।

१ सुवर्ण^०, इन्द्रामि- मन्त्रोक्त^०,
 ऐ-आत्-अन्-अभिप^०xx, इन्द्रिय-
 अति^०, आत्मन्, कर्मन्^०xx, *इन्द्रिय-
 काम- आत्मकाम^०, भूतिकाम^०,
 *इन्द्रिय निवा- निप्रदीत^०

इन्धि- इन्धियन्त्- √ इष् (परि) द.
 √ इन्च् > *इ (न्च >) न्वा- निदरम्^०
 इम- कानि^०, शक^०, रइम^०-

इयक्षत्- √ वच् (परि) द,
 रइयत्^०-रइयत्- √ इ (परि) द
 √ इर > इर- > इर- अन्^०

इइरत्^०, *रइरत्^०- (> ऐर-
 सौय- वा) पाण ४, २, ८०,
 इरिका- (> का यन- पात्र)

पलाय ८, ४, २९^०, इरिण- अन्^०,
 *इरिण-वत्- > *वदु-देश- अन्^०

√ इक्ष् (मतिभेदे) > *इक्ष्य- अन्^०
 इक्कत्^०- इव अति^०, मणी^०, इव-
 -व या १, १०

√ इष् (वया) अतिप्र^०, उव^०, उवप्र^०, प्र^०,
 सम्प्र^०, धप्र^०, इषित- *इष्य- रइष्य
 त्^०, *इष्य- *रइष्य- *इष्यन्^०-
 यो^०, रइष्यन्^०, *इष्य- रइष्य-

√ इच्छ् (परि) द, रइष्^०,
 *इष्पतामन्त्रो(ञ-उ)काम् अम
 ५, १७, इषिका^०- पाठु २,
 ६५, इषी (क) का- इष्टका^०,

१८३^०, २३८^०xx, इषीकत्^०-
 मेदत्^०, इषु- अन्^०, आसन्^०,
 उदर^०xx, इषुका^०, रइष्(क)-
 ४८^०, इषुचारिन्- अन्^० इषुधि-

जत^०, इशर^०, इष्ट, धा- अन्^०,
 दुर्^०, नभ्र^०xx, इष्टमथम
 यत्- *इष्ट-प्रथम सोम- *इष्ट
 सोम- अन्^०, इष्टादौशीव- वापां

हर^०, इष्टिन्- अन्^०, इष्ट(क)^०
 वा- अन्वर्थ^०, अन्^०, अन्व^०xx,
 इष्टि- इष्टि लाभो ४ १, २, ६^०

[इष्टि-अभिहोत्र^०, इन्द्रयाधेव, अन्-
 यत^०, अन्व^०xx], *इष्टि कर्मन्-१ क
 यत्, *इष्टिका^०- अयुध^०, रइष्य
 त्-> *न्तो- √ इच्छ् (परि) द

इ

ई- आ^०, ईकार- अकार^०, इकार^०
 एकार^०, √ ई अलुसम्^०, अलु^०,
 अति^०, अव^०xx, ईति- निर्^०,
 ईति(क)- एह^०, *इव- *ईक-

अलुसम्^०, √ ईक्ष्, ईक्ष्यन्
 वीथो १४, १४ ८^० [अन्^०, अलुव^०,
 अलुवि^०xx], *ईक्ष्^०, ईक्षक-

ईक्षग- अथम^०, अन्^०, क्होरान^०,
 आप्त^०xx, *ईक्षन्कि^०>)का^०-
 गविका^०, ईक्षन्- *ईक्षन्ती-

*ईवम्, ईक्षमाण, गा- अन्^०,
 *ईक्षयन्- ईक्षयित्वा, *ईक्षा-
 *ईक्षग- ईक्षित वा- *ईक्षि
 गन्- *ईक्षिया, *ईक्षिन्-

*ईक्षी-वप^०, *ईक्ष्य, *ईक्ष्य, दया-
 *ईक्ष्यमाण, गा- √ ईक्ष् प्र^०
 *ईक्ष्, झा- *ईक्षन्-

ईक्षम् √ अप्, व् (परि) द

√ ईक्ष् प्र^०, ईक्ष- आण^०
 ईयमान- √ इ (पर) द, *ईयाम-
 वामिन्, ईयिषत्- √ इ (परि) द

√ ईर् अधि^० वामिन्, अभ्युद्^०, उउद्^०,
 प्र^०xx, *ईर्- १२५^०, *ईर्ण-
 २१४^०, ईर्णत्- *ईर्ण-
 ईरित, ता- दक्षिणमास्त^०, १वात^०,

वातु^०, *ईरितवत्- *ईरितुम्,
 *ईरिन्- १२५^०, *ईर्ण- *ईर्णन्-
 *ईर्णन्- १२५^०, *ईरिण-अमत्^०,

*ईर्मरि^०- विहित^०, √ ईर्ष्य^०>
 ईर्ष्या- १३४^०, √ ईर्ष्य अमि^०,
 ईर्ण- अम^०, अयोधि^०, २क^०xx,
 *ईसी- सर्व^०, ईशान, ना-

१४ गौत् ११५, १५ [अ-२अव^०,
 म^०xx, विश्व^०] ईशानी-
 > *ईशा व- म^०xx, *ईशु-

ईशर, रा- अन्^०, ईशानि^०,
 त्रिगुण^०xx, ईशरी- १योगिन्^०,
 ईशर्व- अधिमादि^०, महत्^०

√ ईष् > ईष्- डि द्दि [या-
 अतरा^०, उद^०, द्वि^०xx] ईषत्
 विभक्ति^०, *ईषत् एक-कान् कप्र
 १, ४, २^०, √ ईष् आ^०, व्यति^०,
 सम्^०, *ई(इ>)हा^०, *ईहा^०-
 वत्^०, *ईषित- स्वम्^०

उ

उ उत^०, उपा^०, किम् > वया^०, उ^०-
 आ^०, इ^०, उकार- अकार^०xx,
 उ-वो(व-ओ)वो(व-उ) वामा^०

a) पृ ६०९ यानि सख्यासकेन द । b) पृ ५९४ यानि सख्यासकेन द । c) पृ ६१० यानि सख्या-
 सकेन द । d) तु पागम । e) पृ ६१० यानि द । f) पृ ६१० (>सिन्- इति ने^०म् । g) पृ ६११
 यानि सख्यासकेन द । h) कर्त्तरि क्त्वा । i) = इषीका- । j) पृ ६१२ यानि सख्यासकेन द । k) पृ ४७ f
 द । l) = इष्टान् इति MW । m) पृ ६१९ वीथो १४, १४८ यानि द । n) मत्वर्थीयम् उद् प्र ।
 o) भाग । p) व्या (परि) । q) पाठ १ सम् > -ने इति द (हृ पृ १, ९९, ४) । r) पृ ६२२ सख्य
 ईषत् नेष्टम् । s) वृ १, १०-७१ ह द । t) पृ ६२२ यानि सख्यासकेन द । u) पृ ६२२ ईव->यानि द ।
 v) पृ ६२३ अम्->यानि द ।

उत्तरपद- पाग ४, २, १३८^a [द-
अकार^०, अधि^०, अन्^०××] उत्तर-
पदक- (>औत्तरपदकीय- पावा)
पावाग ४ २, १३८, उत्तरपदवृद्धि-
२२३२^०, *उत्तरपद स्य- अन्^०, उत्तर-
पूर्-> *पूर्वार्ध- १५२^०, *उत्तर-
प्रोष्ठपद- पूर्वप्रोष्ठपद^०, *उत्तर-
विहार- वरप्रमवाच^०, वाहप्रमवाचि-
क^०, उत्तरवेदि- १२२^०, वृष^०, रवेदि^०,
४२२^०, औत्तरवेदिक- शालागुसी^०,
*उत्तरवेदि (-क) - क्त्^०, शाला-
गुसीय^०, उत्तरास- रवेदि^०, *उत्तरा-
(र आ) वृष्ठाइन- ४२०^०, उत्तरात् पा
५, ३, ३४, उत्तराधर-, औत्तराधर-
अन्^०, उत्तराम्बर- ४२०^०, उत्तरा
धै- अन्^०, १२२^०, उत्तरीय-
अन्^०, उताम^०, १२४५३जिन^०, दक्ष^०,
*उत्तरे (रन्) प्रका-> उत्तरेष्टक-
अनुपदिक^०, उ(त्त)>त्ता- √उद्
(परि) इ, उत्था(उद्/स्वा) >
*उत्थ य^०- अन्^०, एतद्^०, सापाठ^०××,
उत्थान- आचमन^०, स्त्रुसगमन^०,
१२४५३××, उत्यापन- आचमन^०,
सगत्^०, उत्याय अन्^०, उत्याधिद्-
पूर्^०, सिग्भ^०, उतिष्ठत, ता- अधि-
दु स^०, अन्^०, स्त्रपम^०××
उत् √पत् > पत्ति, ता- पूर्^०,
प्रबन^०, उत् √पद् > पत्ति-
अधि^०, अन्^०, अनारभ^०××,
*उत्पत्ति रिकार- अद्भुत^०, उत्-
पन्न, पा- अवर^०, इन्^०, अनन्तर^०××,
*१उत् पाद-पगामन^०, चतुर्थ^०××,
उत्पादित- यथा^०, उत्पल- उद्-
धि^०, उत्तरी^० प्रमुद्^०××, *उत्पल

वृन्दे (न् इ) ऋ-वृमुद्- प्रोत्पुल्ल^०,
उत्पात^०- १शराम^०, अमि^०, अद्-
भुत^०××, *उत्पात दोष- विगुज^०,
२उत्पाद्^०, उत् √पू > *पगम-
अधिभरण^०, इषिष्ट^०, १उत्पू-
अन्^०, यजुत्^०, विलीन^०, उत्पन्न अन्^०,
√उत्स् > उत्सुक- अन्त्य^०, उत्स
(व्य>) नथी- *रव्या^०.
उत् √सञ्च् > सञ्च- अयन^०,
*उत्सञ्च-अल- पागमा ४३०, *उत्
सञ्चन- समानन^०, उत् √सद् >
*साद्- अन्^०, १बुल^०, *सादन-
गन्ध^०, १गात्र ××, *उत् सादित्र-
अमि^०, वेदाभि^०, उत् √सह >
*उत् सहमान- अन्^०, उत्साह-
अन्^०, *साह^०××, *उत्साह-अल-
पागम ४३०, उत् √सिच्, ञ्च्
> *उत्-सित- अन्^०, कीर^०, १मधु^०,
उत्सेक- इभृत^०, *उत् सेचन-
१उदक^०, प्राशन^०, उत् √सिष्
> १उत्-सेष- चतुर्दुल^०, द्वप-
हुल^०, उत् √सिच् > *उत्-सूत-
पुनर्^०, उत् √सू (प्रैरु) >
*सव- अन्^०, इन्^०, दग्दग्^०××
उत् √सृज् > सृज- १अम^०, अन्^०,
अभ्यु^०××, *सृजन- उपावरण^०,
परिपयण^०, श्राम^०, उत्सृज-
अन्^०, उत्सृष्ट- अन्^०, इन्^०,
द्वितीय^०××, उत्सृष्ट गत्यभि^०,
उत्सृष्टाभि- त्तर^०, सोन^०,
*उत्सृष्टा (घ-त्र) ध्याय-, उत्स
इषत्-, *ऊ (<उत् सव- अन्^०,
उत् √सृष > *सृष्ट- अन्^०,
*उत् सृष्टित- वम्^०

√उद्, द् अमि^०, अन्^०, वि^०, सम्^०,
*उ(त्त>)त्ता-, उद्-कीर^०, उद्-
कुम्भ- चहुद्^०, पूर्ण^०, प्रणीता^०, ४२०^०,
*उद्भुम्भ तस्मिन्-श्रीर विटि
का- वि-अन्^०, उद्धि- वृत्तरीपण^०,
नदी^०, उद्धिषायन- प्रागडादि^०,
उद्घात्र- तिलमिध^०, स्तुव्^०,
उद्घन- वापी^०, १सरस्^०, उद्-
पानवेक्षण- पनवचन^०, उद्-
मन्थ- दधिमन्थ^०, उद्धिच्- कीर^०,
१मधु^०, १उदक- अहत^०, २अहत^०,
इक्ष^०××, उदकक्रिया- पिष्ट
दान^०, सैमर्जन^०, *उदक खान-
अन्^०, उदकचोदन^०, उदकतर्पण-
नित्य^०, उदकवारा- शाखा^०, उदक-
पात्र- यथा^०, *उदक पति-दान-,
*उदक पति-पिष्ट-दान- आशौ-
च^०, उदकविन्दु- ४२०^०, *उदक-
भाजन- ४२०^०, सदर्भ^०, उदकाच-
मन- यज्ञोपवीत^०, उदकान्त-
व्य^०, *उदका(र-त्र)नाय-शूद्रस-
था^०, *उदका(र-भा)सिचन-
अधिभय^०, उदकोपपरतन- अन्-
शन^०, अमिता^०, मेघलापारा^०,
उदकवा- अन्^०, वृष्णाल^०, पतित^०,
उत्सृन् स्तिस्र^०, उद्- > १उद्-
(व्य >) म्वा^०, उद्-वत्^० ११-
*उद्, उ-दन-, उद्-घृत्, यजुप्^०
उद्ग्र^०- अन्^०, उद् (द/अ)च्,
ञ्च् > उद्घ, ष्च्- उद्घ वापी
१५, २६, १^a [च्, ष्च्- अन्^०,
१उद्घिष्, अन्व^०, प्राच्^०] उद्घी-
चीय वैश्रीया ४२०^० [ची- प्रत्यन्^०,
प्राच्^०] उद्घगम- प्रागम^०, उद्घ

a) तु पागम । b) उप = स्थ- । कर्त्तव्ये प्र । c) इ ६२० यनि इ । d) इ ६४० यनि
सधवायकेत इ । e) पति वै १, ८९१ इ । f) इ ६५१ आम्भ(वृष्ण) > यनि इ । g) इ ६५४ इ
(न) > यनि इ । h) इ ६५६ यनि सधवासकेत इ । i) वै १ इ । j) इ ६५६ अन्त्य । केऽथ ।
k) यथ । l) पथे. वै २, ३५ उदन्त्या ए ७, १८ टि इ । m) इ. सप्र वैश्री ३ १ ।

मुत्-सा ११०० व ५, उदीरय-
 प्राव° उदीरयमान- अभाव°,
 उद्जन- ४त° उद्दजन- ४त°
 उद्/अम् > उद्गा- प्राण°,
 उद्दर- १६व°, कतु°, हुत°xx,
 *उद्दर-देश- रहुंर°, *उद्दर भुगो
 (ज उ)ग(-६)- महर°, उद्दर-
 ऋव- गावा ३, २, १५°, उद्दल-
 > भीदल- भीरीविन°, द्वावाश°,
 *उद्द अयमह°- ह गुण १,
 ११८। उद्द/सो > उद्दव-
 सान°- > भीय, पा- कनृप°,
 ४त°, उद्दवानीपता- प्रातर-
 मुतादि°, उद्द साय° इर°
 उद्दवाह- > भीदवाह- >
 *पादि- महर°, उद्दमज- >
 भीदयत्रि- प्राचीन°, उद्/अस्
 (धावण) > *सन- उर्पय°, रशना°,
 उद्दा/दा > *न- इर°, इत°,
 अर्धहर°xx उद्दाण(-न)- उभय°,
 उद्दातर- प्रथम°, *उद्दात्त निवृत्ति-
 पातु°, उद्दात्तानुवाच- गिन°,
 *उद्दा/मन्त्रि > *म-प्रण- सुव-
 लोप°, उद्दा/यु > *युवन- दगी°
 उद्दा/र-°, *उद्दा/र- बोध°,
 उद्/आस् > *सीन- कतु°,
 उद्दा/ह > *हत- निपुण°, उद्-
 /इ > उद्दय- अमर° रूपोप°,
 अनुदान°xx, उद्दयन- ज्योत्सु°
 वृ°xx, उद्दयनीय वा- अरमृष°,
 प्रायणोप°xx उद्दित, वा- अन्-
 षर्ष° अक्षमित°xx, उद्द(त्) > जी-
 इर°, उद्दस्तोम- मा द्विधी
 १७ व ८, *उद्/इमध् >

उद्द इमधर्- - धर् आचम २,
 ११ २५१°, उद्दुम्पर- १६२-
 त्वा°, पाःमर्ष°, गान्त°xx,
 भीदुम्पर- अयामर्ष°, अरुप°,
 अर्ष°xx, भीदुम्परा- अर्षि°,
 १५१°xx, *भीदुम्पर-गति-
 म-योष°, उद्दुम्परपथ- इरमन°,
 तित°, *उद्दुम्परा समिप्- *वष°,
 उद्/ज्जघ > उद्दवं- अर्ष°,
 अपेर्ष°xx, *उद्दं योति- अगमा-
 न°, उद्/कृच्- > *उरघ- छा°
 उद्/गम् > *गन- कद्°,
 प्पाद्दशर°, १५८°, उद्दम-
 अन्तर° ल°, इद्दचाप°, उद्दमन-
 उयोनिर्, उद्/गाह् > *उद्-
 गात्र- १६६वारा°, उद्/प्रभ्,
 प्रह् > *प्रभग- इतिन°, *प्रह्क-
 वषा°, उद्/गृ (निगण्) >
 *उद् गतिर्- इमृत्, उद्/गी
 > *गाह्- चरुं°, इरान्°xx
 उद्दालक°- *उद्दालक°-
 गोश्व°, उद्/दिष् > *दिष्-
 इर°, १६२°xx, उद्दस- अयाण्°,
 उक्ति°, प्रादत्°xx, *उद्-
 दीक्षण- अदिता°, उद्/इडा
 > *इर- अयाणुनी°, उद्/धन्
 > उद्दत- इर°, आगु°, १५४।
 उद्दतन- उवेदि°, समृत्न°, उद्
 /घा > उद्दि-अपरिमित°, १६६°,
 त्रि°, १५२वन्, उद्/धू > *उद्-
 धृत- १५४।, उद्/धृ > उद्द
 रण- उवरण°, प्रदहन°, १६८°xx,
 उद्दरव- इर°, उद्दार- लिङ्ग°,
 उद्दृन- अर्ष°, हुतीर°xx, उद्

धो (त-उ) गंगा- गृहार°, उद्-
 ए व अर् उद्/यम् > *यधन-
 अभाव°, उद् वाहु- > *उद्वाहु-
 गमा- उधान°, *उद्दुम्पर- >
 भीदुम्पदि-°, उद्/भास् > *क
 (< उ) द-भाविर्- इर°, उद्-
 /भिद् > *भिद्- अर्, उद्-
 /भू > *उद् भव- अर्षवेद°,
 अन्नुद्ग°, हुत्न°xx, उद्/भृ,
 उद् *भर मीधी १५, २१, १,
 उद्द/वृ(परि) इ, उद्/यच्छ्,
 यम् > *यच्छ- इर°, उद्दग-
 १५१।, काव°, *उद्दग(र) > ग-
 रे धीम् १३७ ३, उद्दम- प्रहार°,
 उद्दमन- अर्, उद्दमनविधातन-
 अणुप°, *उद्द-पाम°-दादग°, रत्त°,
 १५५°, उद्/या > *उद्-
 यान- माग°, देगृह°xx, उद्-
 /यु > *यार- अभाव°, १५५°,
 *उद्-युव- मधु°, उद्/युद्,
 *उद्द *युगे°, *उद्द-युव- नित्य°
 उद्/रिच् > *रि- अणुण°,
 प्रोक्षणे°xx, उद्/रुत् > *उद्-
 र- वृम्, उद्दृष्- अर्ष
 नधी १, ६, २१, उद्दस्तर- >
 *री(व >) पा- अनुवन्तरीया°,
 उद्/चप् > उद्दुम्पर- इर°, तृतीय°,
 उद्दुम्पर- प्रथम°, १५६वन्, उद्द-
 पनी- शेषि°, *उद्द वाय- आ-
 बाव°, विपीतिगा°xx, उद्/वस्
 (आन्धादाने) > *उद्-वसत-
 प्रथम°, उद्दास- रज्जु°, उद्-
 यासन- इति°, अविप्रयण°xx,
 उद्दासनीय- प्रहृत्नीव°, उद्-

a) पूर्वेषु सपिपारै । b) पृ ६६२ यनि इ । c) प्रास । d) पृ ६६५ यनि सख्यासकेत इ ।
 e) नाप (धान्य) । f) उद्दत्त इति पाठ इ यनि शोच । g) वैप इ इ । h) पाप्मे वैप इ परि इ ।
 i) पृ ६७३ यनि सख्यासकेत इ । j) क्प । k) पृ ६६३ b इ । l) औ इति पाठ इ यनि शोच ।

वासित-°स्य भ्रन्, उद् √ वह >
 उद्-गह°-बूलम्, उद् √ विञ्ज >
 *उद्-वि(म) > ग्रा-नित्य°, १भम°,
 उद्देग- > *उद्देग-इर-अन्, *उद्
 वेजन- भ्रन्, उद्घी (वि ईं)श्
 > *उद्घी (वि ईं) क्षम- प्रहास°,
 २वश°, उद् √ घृत् > *उद् घर्शन-
 २वतन°, वैद्युत्, उद्वास्ति-
 गौरसर्वपक्व°, उद् √ वै > वात-
 अन्, उद्द्याप्य श्राप ३, १, ३°
 [°स्य अन्], *उद् वाप°- मध्य°
 *उधस्- अणु°, *उध्-पाठु २,
 १४, उन् √ नम् > उद्यत- अष्टा-
 र्गुल°, १उत्तर°xx, उन् √ नी >
 उद्ययन- चमस°, चमगण°xx,
 उधीयमान- पर्यभि°, उद्येह-
 क्रधर्षु°, प्रस्तोह°xx, उद्येव(र्)-
 ४न°, *उद्येव- आधीध्र°, उन्
 √ मज्ज > *उद्-मज्जन- शर्वरा°,
 उन् √ मद्, उद्...मावसि°,
 उन्मज- अन्, अदिष्ट°, उद्घटा°xx,
 *उद्-माद- ४स°, उन् √ मा
 (मादे) > *मान- २मान°,
 *उ(द् >) न् √ मिथ् > उद्-
 मिथ- सर्वसुरमित्त°, *उन्
 √ मिप् > उन् मेषण- अक्ष°, उन्
 √ मील् > *उन्-मील- १उदक°
 उन् √ मुद् > *मद्वन- श्रावस्य°,
 उन्विष्टाश्न°, *उन् मुदित- सर्व-
 सुरनि°
 उप वापधौ २, ५, ९ [परि°, मु°]
 उपकनिष्ठित्त- इष्टगुह°, उप
 √ काश् > *कास- १गोल°,
 स्तिष्, *उपकि (म) > ज्ञा-

अन्, उप √ कृ > *कृण- अन्,
 गृह°xx, *उप-कार- १इत्त°,
 १रोह°, उपहृत- तद्, *उप-
 कृष्ण°- वा ६, २, ११४, उप-
 √ कृ (विक्षेपे) > *उप किरण°-
 १आशुम्, *उप कीर्- १सिक्-
 ता°, उप √ फल्ड् > *कम्पन-
 १इव°, उपकल्प- १दर्म°, सदर्म°,
 उप √ मम् > *क्रम- क्रन्, १°,
 उपज्ञा°, ऊन°xx, उपकमण-
 प्रातरनुशाक°, उपकान्त- अन्,
 *उप √ कुश् > उप कुष्ट- धत्रिय-
 वैद्य°, *उप √ क्षि (अवे) उप-
 क्षित- इत्, उप क्षी(ष) > ग्रा-
 अन्, सावित्रपक्षीवतहारिगोजन°,
 उप √ गच्छ, गम् > *उप-
 ग-चन्द्रसूर्यमह°, छाया°, पुनपला°,
 उपगत- छाया°, लुङ्गित°xx, उप-
 गम- १गुण°, फला°, *उप √ गाह्
 > उप-गाहन°- रुषेला°, उपगु-
 > *शौपगि- शठमर्षण°,
 उप √ गृ प्राह् > *उप-गृहीत-
 १सम्, उपग्रह°- ४न°, उप √ गौ
 > उपगीत- अन्, उप √ म्य्,
 *उपमय°, *उपचा°- आच°, उप-
 √ चद् > *उप-चरण- कु°,
 उपचार- ह्यभिहोत्र°, अत्रय°,
 *आहृत्, उप √ चि (चक्ष्णे) >
 °चय- १एत्, प्रात, प्रैत्, ४स°,
 *उप चयन- तस्य°, उपचाप्य-
 परिचाप्य°, *उप-चित- अचित°,
 कश्चिन् रिपर°, खुत्तिष्, *उप-
 √ छिद् > उप क्षिप्त > उपगिष्ट-
 प्रग- अन्, उप √ जद् > *उप-

ज- पशु°, उपजन- एकराज°°°
 चतुराह°xx, उपजात- त्रियाभि
 '°श°, *उप √ जि > उप-जिगी-
 पमाय- ग आपप १, २४, २१°
 उप √ जीव् > *उप-जीवक-
 देवस्य°, उपजीवन- २११°, उप-
 जीविन्- आत्मन्°, आयुष°,
 उत्तोह°xx, *उप-जी (अ) >
 श्या > उपजीव्य च्छाया-शाल°,
 उप √ हा > °हा- किम्, मात्रा°,
 यथा°, धया°, *उप-तक्ष°-
 १तक्ष°, उप √ तप् > *तप्त, ता-
 अन्, ईपन्, उपगप- छुद्रअणु°,
 इन्द्र°, लिङ्गित°, उप √ दंश् > *दंश-
 अन्नादि°, उप √ दस् > उप-
 दस्- १, *उर दस्- १, *उप-दस्वत्-
 *उप-दासिन्, *उप-दा(स) >
 सी-, *उप दासु(क) > का- अन्,
 उप √ दह् > *उप दह- १, *उप-
 दहमा(न) > ना- अन्, उप-
 √ दिश् > *दिष्ट, धा- अन्,
 १एक°, प्रथम°, यथा°, सदा°, उप-
 देत- अग्नि°, १अत्र°, अन्°xx,
 उपदेशन- गृहमेध°, वेवता°, २धर्म°,
 उपदेश- ज्ञान°, उपदीक°, उप
 √ दुह् > *दोह- वार्य°, *उप-
 शोदि(र) > नी- शुभकाल°, उप-
 √ दु > *द्व- उद्गीष्, १दुर्, १
 नव्, नि°, सर्व°, उप √ धम्,
 धमा > *उप धमन- मुख°,
 उपध्मा- उ°, उपध्मात्- ४न°,
 उपध्मात्तद- अदुदहार°, उ°,
 उन्मत्°xx, उप √ घा > उपघा-
 क्कार°, अयक्षर°, अन्°xx, उप-

a) उप वप्रांघ्ये प्र । b) वामे १ २२० d द । c) सर्वे म्यु व १ । d) १ ८० 'वि >
 ननि द । e) उप कृष्णा- इति पाष्ठा । f) उप माप । g) =साम । h) =कुन्-मुष्टि- ।
 १) वेद १, १११९, वेद ४, १२९ b च द । j) ११९ १ द । k) १ १८२२ h द । l) गया दिप १,
 १, १९ उपविहीयेमान इति पाष्ठा । m) प्राण. । n) १ १९० °o > b द ।

धान- ३आरतरण^०, इष्टना^०xx,
 उपधि- अक्षर^०, अन्^०, १०२^०,
 उपहित, ता- ३अन्^०, अन्त^०xx
 *उप√धू > उपधून्- १धात^०,
 उप√धूप > *उप-धूपन- दिग्-
 दाह^०, उप√नम् > *नत-
 अनामता^०, आनत^०xx, उप√नह
 > *नह- अख ध.न^०, *उप नहन-
 २वास^०, शोम^०, उपागह- २आदर्श^०,
 उष्णाद्गुस्मान^०xx, उपात् (क)-
 अन्^०, *उपात्-स्वयं हरण-
 पत्रप्रचयन^०, *उ (प >) पा-
 नह^०- १छत्र^०, १दण्ड^०, वर^०
 *उप-नामन्- ४ध^०, उपनि-
 √गृह > *उपनि गृहन्- अन्^०,
 उपनि√घा > *उपनि-घि-
 निक्षेप^०, उपनि√नी > *नीप
 अन्^०, उपनि√वघ >
 *उपनि व (ह >) द्वा- सु^०, *उप
 नि√भा > उपनि भ्र- सरार^०,
 *उपनि√मज्ज > उपनि-
 मज्जन्- अन्^०, उपनि√यम् >
 *उपनि यमन- १दुग्ध^०, *उप
 नि√विष् > उपनि वेत्- पान^०,
 उपनि वेतिन्- १एकर^०, उप
 निप् √अम् > *अमण- एष^०
 नभाषान^०, उपनि√पद् >
 उपनिपद्- गुण^०, २भाष^०,
 शौपनिपद्- गोदान^०, गौदानिप^०,
 उप√नी > *नय- त्रैलोक्य^०,
 पतितसावित्री^०, उपनयन- अतुलन-
 मन्^० चर्माधान^०, सुडा^०xx, उप-
 नयनसस्कार- इज्या^०, उपनयना-
 मि- तद्^०, *नीत, ता- अन्^०, मन्^०,
 म रहीन^०, स्वभाव^०, उपपक्ष-

उत्त^०, उप√पात् > *पात- अन्^०,
 वर्मन्^०, गधावाला^०xx, *उप पाठम्
 यथा^०, उपपति- सद्^०, उप√पद्
 > *पति- अन्^०, अर्थ^०xx;
 *पद्यमान, ना- अन्^०, *पद्य- अन्^०,
 अज्ञानवर्ग^०xx, *उप पाद्- यथा^०,
 उपपादन- अर्थान^०, *उप पाद्म्,
 *उप-पादिन्- यथा^०, उपपद्-
 अन्^०, इतरे^० म्^०xx, *उपपदा
 (द भ) र्थ- अन्^०, उपपातक-
 अम्युःसादिन्^०, अतिपातर^०,
 पातर^०, *उप-परी (दि-ई)
 च् > उपपरी (दि-ई)क्षा- देशता^०,
 उपप्र√घव्, उपप्रवद्^०, उपप्र
 √वृत् > *वर्तन- सख्यापन^०,
 उपप्रे(अ-ई)प् (गौ) > *प्रे^०,
 उप√प्लु > *प्ल- आदित्य^०
 पक्ष^०, पु-छ^०
 *उप√फण्, फं (उप) अफालयत्^०
 आधौ ६, २, ९, आधौ १८, १९, १०
 उप√यम् > *यम्- १गुण^०, प्रकृति^०,
 प्रकृति^०, १सज्ञा^०, *उप-म-धन-
 प्रकृति^०, १उपयिल- रम् दिधौ
 १, ४, ४६^०, उप√वृह् (वृहौ) >
 *वर्हण^०- आञ्जन^०, २एरका^०,
 हरिपु^०, उपधि- > *मत्-
 १उपाशु^०
 *उप√भिद् > उप-भित्- रह-
 भुजुपदि^०, उप√भुज् > *भुज-
 बलात्तर^०, यथा^०, *उप-भुक्ति-
 दिन^०, *उप भोग- १भाषि^०,
 नदीक * ल^०, *उप √भू, उप
 वभूयाद्^०, उप√भृ > *भृत्-
 -भृत् वाउथी ६३, १०७ [च्-
 *भृत्^०, पत्रि^०]

१उपम, मा- अन्त^०, अर्थ^०, इन्द्रधनु^०,
 वर्मन्^०xx, शौपम्य- १मज्ञा^०, १उप-
 मायं- > *उपमाधीप- य यां
 १, ४, *उप√मक्ष् (क्ष्) >
 *मक्षत्- अन्^०, उप√मज्ज् >
 *उप-मज्जत्- अन्^०, उपमज्जप^०,
 उप √मव् > *उप-मथित-
 १प्रसव^०, *उ (< उ) प-मथित-
 अन्^०, उप √मन्त्रि > *उप-
 मन्त्रण- भासन^०, उपमन्त्र्यु-
 > शौपम्यय-वारह^०, शठमथि^०,
 उप√मा (माने) > *मान-
 अत्यधीभाव^०, तुल्यार्थ^०xx,
 उप√मृ > *उप-मारण- पुम्भ^०,
 उप√मृज् > *मार्जन- २वेत्^०,
 *मृज्य अन्^०
 उप√यम् > *यम- फन्नामि^०,
 तद्^०, १शफ^०, *यमन- भाषा^०,
 १शफ^०, *याम- अन्^०, उपरिष्टात्^०,
 रुद्रण^०, पुरस्तात्^०, ३वेद^०xx,
 उपधामगृहीत- अन्^०, उप√या
 > *यात- यात^०, उप√युज् >
 *युज- अन्^०, अन्^०xx, *योग- अन्^०,
 न-धन^०xx, *उप योग- अन्^०,
 *उप योजन- आदिष्ट^०, उपर-
 अतष्टिप्रदेश^०, अनाविष्ट^०, एष-
 दत्^०xx
 उप√रञ्ज् > *रम- गोत्रादण^०,
 चन्द्रसूर्य^०, चन्द्रार्थ^०, उप√रम्
 > *रम- शरीर^०, *उपरमथ-
 कर्मन्^०, उपरि- करणि^०, शोष्ठ^०xx,
 *उपरि भाग- अक्षिचनयत्^०,
 उपरिष्टात्- तद्^०, पुरस्^०, पुरस्तात्^०,
 उपरिष्टान्त्यय- पुरस्तात्पण^०, उप-
 रिष्टान्त्योत्तिष्ठ- वृहदथन्तर^०,

a) = उपासद्-1 b) प्रास । c) पृ ६९७ f नेष्टम् । d) पृ ६९७ g > f । e) वैप १६ ।
 f) पथे पृ २५४ p । g) नाम । पृ ६९८ h नेष्टम् । h) पृ ६९८ i > o । j) पृ ६९८
 *उप√यम् > यति ६ । j) भाष, भाष (वक्षिण पाठ-)

उपरिष्ठात्-स्वाहाकृति- गीम्
 योश्री १५, ३१ : २०; उपरिष्ठाद्-
 बृहती- अतुष्टम्, उष्णिद्, त्रिः;
 उपरिष्ठाद्-मुष्; *उपर्या (रि-आ)
 सन- १ मधु०, मांस०; उपरिथिभ्रव
 गार्क०; उप √ ह > रव-
 उत्तरवेदि०, १५२०xx; *उप-रुत्त^०-
 -रुत्त वैद २, १ : १०; उप√रुध्
 > शोच- अन्; *उप-रोषन-
 धन्, धर्मतन्त्र
 उपल- इत्यन०, ऊर्ध्व०xx; उप
 √लक्ष् > लक्षण- अन्, देवता,
 १३३३, सर्व०, लक्षित-मुनिमित०,
 लक्ष्य अन्, दुः; उप √लम्
 > लम्ब- अन्, वया, लम्बि-
 अन्, घृष्टविभक्ति०, श्रुति०, दप०;
 *उप-लभमान- अन्, उपलभ-
 विद्यमान०; *उप-लभम् यथा;
 *उप √लिङ्ग > उप-लिङ्गिन्-
 अन्तस्थान्तरः; उप √लिप् >
 लिप्त- गोचर्ममात्र०, चतुर्थ०, कूर्त०,
 संसृष्टः; उपलेपन- नम् दौष १,
 ५, ४६० ['न- वृद्, मार्जन०xx],
 *उप √लिह > उप-लीड- अन्
 *उप √वञ्च् (गी) > उप-
 पञ्चन- भु०; उप √वद् > वाद-
 अन्, पञ्च, उपचन- भु०, शाद्-
 वल०; उप √घप् > उपोष-अन्, १
 विभक्ता०; उप √घर्ण > *उप-
 घर्ण- दानश्लेष्; *उप √घस्
 (आच्छादने) > उप-वसन-
 वीभृत्; उप √घत् (निवासा०) >
 *वसप- १ फाल्गुनी०, ४४,
 २५मास०; औषवसप- अन्, १ उप
 वसन०; उपवास- इन्द्राधान०,

अभिशास०xx; उपवासिन्- मास०;
 *उप-वासन- १ काङ्गण०; *उपो-
 (प-उ)पण- पक्ष०; उपोषित- अष्ट-
 राज०, विराज०, पद्मराज०; उप
 √वह > *उप-वहन- १ इडा०; उप-
 वाक- श्रीहि०; उप √विष् >
 विशित्- अन्; *विष्ट- उच्छिन्ना-
 सन०, एकविक०, अक्षरवारव्यायुष०;
 *वेदान- अर्क०, आसादन०xx;
 *वेदि (उ >) ता- १ अन्वयवर्ण०;
 *वेदिन्- १ अक्षरान०; उप √विष्
 > वेव- अन्, दवि०, सन्, १
 *उप √वृच् > उप-वृषण- १ सप्त०;
 उप √वै > वात, ता- निष्ट०,
 प्रक्षालित०; उप √व्ये > वीत-
 १ इत्, १ इत्, मेघना०xx;
 उपवीतिन्- दक्षिणात्सु; *उप
 √व्ही > उप-व्येक- आसन०
 उपश- १ शर०, औषशद्- २ शद्;
 उपशर्- १ गामिमुत्त०; उप
 √शम् > *उप-शमन- १ उदक०,
 शरी०, *उप-शान्ति- १ विप०;
 उप √शी > श्व(व) पा- शक्ति०,
 उद्या०, ४४
 उपसं √युत् > योग- कर्मन्,
 उपसं √व्ये > *उपसं-व्यान-
 वहिर्गो०; उपसं √ह > शर-
 ओष्ठ०; उपसं √गम् > *उपसं-
 गमन- अर्धविज्ञात०; उपसं √गृह्,
 ग्रह > गृह अन्; *उपसं-
 ग्रह- कर्मन्, उपसंग्रहण- उच्छि-
 द्वासन०, १ गद्; उप √सद् >
 *सद्- आदीषोर्भाव०, आदिष्या०,
 १ धर्म०xx, औषसद्- विष्; उपसत्
 (-ह)- अन्, अन्तर्वेदि०xx,

*उप-सद्- सु०; उपसन्- अन्;
 *उप-सादिन्- पुत्रस्थान०, उपसं-
 √तन् > *तान०- अन्; उपसं-
 √घा > *उपसं-घान- १ श्रुत्; १
 उपसं √नश् (व्याती), *उप-
 मम्...थान्, उपसं √तह >
 *नह, ह्ता- ह्ता वाधुषी २, ६१ : ४०
 ['व- सन्']; उपसम् √अश्
 (व्याती), उप...सम्...अद्यात्
 भाषमं २, १, २; उपसमा √घा >
 *घान- अग्नि०, निवास०; उपसम्
 √हान् > *वन- श्रित०; उपसं-
 √पद् > *उपसं-पत्ति- शक्ति०;
 *पन्- भुतशील०, *उपसं √भाप्
 > उपसं-भाषा- भासन०; उप
 √सिष् > *उप-स्येक- १ दवि०;
 *सेचन- पत्तु०; उप √सृच् >
 *सर्ग- अन्, शतुदात्त०xx; *सर्जन-
 अक्षरादान०, शन्xx; उपसृष्ट,
 छा- श्वि०, अन्xx; उप √सेष् >
 *उप-सेवा, उपसेविन्- राजन्;
 उपसृ √कृ > *उप- माहृ०,
 लसंगराश०, सुसंस्कृत०; *उपसृ-कृत-
 अन्; उप √सृत्, सृत् > *सृष्टण-
 अन्, लङ्, लेपन०; उपस्रीमं-
 अन्, कृती; *उपस्रीर्णा (सं- १ श्रा)
 सन्-शक्ति- धन्; *सृग्-
 अन्; १ उपसृष्ट- शक्ति०, अक्षर्य०,
 नाभि०, १ गतु०, सन्वीतदि०, १ सन्;
 उपसृष्टकन- अन्, प्रक्षारितवाप०;
 *उपस्य-निग्रह- स्नान०; *उप-
 स्यल- सु०; उप √स्था > १ उप-
 स्य- स्य०; १ उप-स्था- १;
 २ *उप-
 स्या- सु०; १ उपस्थान- अग्नि०,
 अग्निहोत्र०xx, उपस्थापन- १ इत्य०;

a) ५००x अन् > यनि द.। b) नाच. (बलिपुत्र- [इ. C.])। उपहृतम् इयनि C. संभाव्येत्। c) यनि.
 ५५५ अ द.। d) ५००८ यनि. संख्यासंज्ञेः द.। e) प्राच.। f) कर्मणि सत् प्र.। g) संसृष्टेः। h) ५ ७५५
 *आपमं २, १, २' गेष्टम्। i) ५ ७५५ यनि. स्पष्टदोषः। j) ५ ७५५ यनि. संख्यासंज्ञेः द.। k) वेद २ द.।

उपस्थाव शांति १, २८, ७^० [य भन्] ;
 *उप-स्थाविन्- अधिगृह्यत्^० ;
 स्थित- इन् उदात्त^०, यथा^० ;
 स्थित^०, स्थिति- आन्वीध्र^०, १भातु^० ;
 उप√स्वृञ् > *उपशैन-अप(ः)^० ;
 १उदत्त^०, चण्डाल^०, चाण्डाल^० ;
 विस्वयु^०, पति^० ; *उप-स्थाविन्-
 १उदत्त^०, *स्वृण्य- भन्^०, *स्वृण्य
 इन्^०, *स्वृण्य- प्रह^०
 उप√हृन् > *वाल-आभि^० छेद^० xx,
 *उप-धातिन्- ईह^०, *हृन्- अन्^० ;
 उपहृत्, ता- पाव ६, २, १४६^०
 [*उ, ता- अन्वन्त^०, इन्^०, अन्-
 नत् xx], *उपहृत् देह- १वाल^० ;
 *उपहृत् (त-अ) द- तस्कर^० ;
 *उप-हृति- कपोत^०, उपहृत् य धन्^० ;
 उप√हृ > *उप जिहीर्षमान-
 -ण हिष १, ६, ६९^०, उपहृण-
 १वीत्र^०, उपहृत्- ग्राहाति^० ...न्^० ;
 निर्मात्वा^० वि^० ; १गुण^० xx, उप-
 √हृवे > *द्व- १इडा^०, १उपाहृ^० ;
 निग^०, ४४^०, *उप-हृवन- १इडा^० ;
 उपहृन्- २तीमसुत्^०, उपहृत्-
 अन्^०, १इडा^०, *उप-हृति- १इडा^० ;
 उपहृन्- वाद्वा^०, उपहृन्-
 मान-अन्^०
 उपा- अर्था^०, १उपांशु- > *छ-
 मान, जा^० - [*ज- यस्],
 उपा√छ > *करण- अन्वित^० ;
 १वाय^० xx, उपावसन्- अन्वित^० ;
 आवाह^० xx, उपाकृत- अन्^०, उपा^० ;
 *उपा √क्या > उपा क्य^०-

इन्^०, उपा-क्या- तद्^०, *उपा (प-
 १अ)प्र^०- जिह^० ; उपाहृपय-
 वृष्ट^०- परोक्ष^०, परोक्षवृष्ट^०, प्रत्यक्ष^० ;
 उपाहृ- १अह^०, १लक्षण^०, उपा-
 √चर > *वरित- ३नत्^०, प्लुत^० ;
 उपा(प√अ)ञ्ज > *अन-२अक्ष^० ;
 गांजन^०, *उपा(प-अ) मी(ति)√इ^० ;
 > उपाय (ति-१अ) य- अन्^० ;
 उपा √दा > *स- अन्^० ;
 अनन्तरवृत्ति^०, एकांतरवृत्ति^०, *उपा-
 दान- इन्^०, वार^०, निमित्त^० xx,
 *दाय अन्^०, उपात्त, धा- इन्वन्^० ;
 २भाव^०, उपा√धा > *धि-
 प्रहण^०, २तदन्त^०, प्रकृति^० ; *उपा
 हित- संकुल^०, उपाचिक- पति^० ;
 उपाधी (धि √इ) > *धाय-
 आचार्य^०, आचार्य-तनीयुत् xx ;
 *ध्या(धा) धि-आ) विन्- हृत्^० ;
 उपात्त- अनामिका^०, उपा (प-
 अन्व) > *न्या- उपावा^०, उपा
 (प√आ)प् > *उपे(प-ई) पित्-
 निरान^०, उपा (प√अ) र्ज >
 *जित- १विधि^०, स्वयम्^०, स्वर्त^० ;
 उपा √लभ्, २भू > *लभ-
 अन्^०, *उपा(प-अ) व √गाह् >
 *गाह^०- हृ^०, उपाव √रुह् >
 *रोहण- समिध^०, उपाव √हृ >
 *हरण- अत्याधान^०, प्रभारणीय^० ;
 २मान^०, लोभ^०, उपा √वृत् >
 *वृत्-सु^०, उपा √श्रि (सेनायाम्)
 > *श्रित- प्रसारितपाद्^०, उपा(प
 √अ) स् (केपणे) > १उपासन-

१शरत्^०, उपा (प√अ) स् >
 १उपासन- आचार्य^०, आत्मन्^० ;
 आदित्य^०, इ^० xx, *उपा(प-
 आ) सिन्- ईरन्^०, स-प्या^० ;
 उपा √सञ्ज् > *सज्- शार्ध^० ;
 उपा √हृन्^० ; उपे (प √इ) ;
 *उपयन्तु^०, उपाय- इन्^० ;
 अन्वय^० xx ; उपायन- निगम^० ;
 निधन^०, व्रत^०, सु^०, *उपायन-धिमो-
 चन- व्रत^०, उपायिन्- २भासन^० ;
 आया^० xx, उपेत- अन्^०, अ-
 गुह्य^० xx, उपेतपूर्व^०, उपेत अन्^० ;
 उपे(प√ई, हृ) > उपेक्षा-ध्याधि^० ;
 उपोत्तम- गुण^०, *उपोद्की-
 विपत्नी^०, उपोषण- उप √वल्
 (निवासा^०) परि. ३, उपो(प√ल्)
 ह् (प्राक्णे) > *हन- स्व^० ;
 उतस्य माधी ३, ५, ३
 उव्य √वप् (परि.) द.
 √उव्ज् अभिनि^०, २उद^०, नि^०, निर^० ;
 प्रति^०, सम^०, उव्ज्- *उव्जित-
 *उव्जित्- *उव्जय
 √उभ् अन्^०, प्र^०, सम^०, *उभय-
 *उभय, उभ- > १उभय- वर्व^० ;
 उभयतत् ()^०, उभयत-कृत् (>)
 ता- आम् हिथो^० ११, १, ११, १७,
 १, १३ ; उभयतोमेद्- यक्षणा^० ;
 *उभय दन्त- एकउप^०
 उमा^०- मा अप ४०, ४, ३^० [मा-
 अला^०]
 उरस्- १उष्ण^०, उरश्- १उरस्-
 उदर^०, कल^०, वास^० ; १वीरस्-

a) पाठे. १ ६९३ हृ द. । b) १ ६९३ यनि. स्वल्-शोच । c) पाठे १ २०९१ । द. ।
 d) १ ७२५ अ- > यनि. द. । e) = प्रत्यक्ष- । कर्मणि कृत् । f) प्रायः । g) = [पुष्ट-नेद-]
 पउद्-विशेष- । १ ७२८ उ नेष्टम् । h) लृक् प्र । i) १ ७३३ (प-अ) > यनि. द. । j) १ ७३३ माष्ट. स्वले
 एव हृ द । k) १ ७३८ अय १, ५, १४^० नेष्टम् । l) १ ७३८ उभयत हृन्- > कृत्- > यनि. शोचः (हृ.
 शोचपशम्) । हृ ङि क्नि नेष्टम् । m) १ ७४० उभ- > यनि. द. । n) १ ७४० अन्वयं ० नेष्टम् ।
 o) १ ७४१ उरस् इति नेष्टम् ।

ऊर्, उरग- गन्धर्व, पिशाच,
 धानर, उर विरस- रोम्याम्
 मासि १, १२, *५उरस- प्रति,
 उरस(-क)- रोचिष्णु, यनमाला-
 विम्बित, १उर- *१रुम्
 श्रापश्री ९, ८, ८, द्विष्ट २, १७, ३
 [५ १५१] उर्षी- प्रशस्त,
 *उरसु- ऊर्, *१उरुत्पतो^१,
 उर्ष(र>)रा- उद्धृत, गोधूम,
 ३यव*xx, उर्षशी- अर्षमन्, औ
 र्षश- गार्धिन, *३उल^२- *आल^३
 उलष [ल, व]- उर्, १रुण,
 निर्- सुगन्धितेजल^३, १उल्लू-
 वपोत, कठविद्ध^३, १कक*xx,
 *उल्लुकी- १उल्लू, २उल्लूक-
 चिकित्, उल्लूखल- अनस्^३,
 इन्*xx, उल्लूक, रक्षा- भासि,
 शठ*xx, उल्लूपाव- निर्घात^३,
 भूकम्प, उल्लू- अवका, उल्लूपा-
 धन, उल्लूक- अर्षि, आहव-
 नीष, उल्लूपा*xx, उल्लू/लिख
 > उल्लू- देवयजन, प्रतप*xx,
 *उल्लू/लिप् > उल्लू-पन-
 समूह^३, *उल्लू/लोच् > उल्लू-
 लोच- नेत्रादि, *उल्लूपापिक^३-
 अर्ष, *उचिदपति^३- ति लाश्री
 २, १२, ८, उदानस- उहर्षति, राहु,
 १औसनस- कीर्त्तव, उशीतर->
 औशीतरी- वाग ४, १, १७६,
 उशीर- लगर, प्रमन्, अर्षिष्ट^३,
 स्वगर, √उप (वाहे) अर्षुप,

२उद्, उर्, परि, पुरुप, प्रति,
 सप्, *उपण-, *३उह- उष्ण,
 प्णा- १अननि, वद्, कर्, ३
 विम् > का*xx, उष्णता- मात,
 उष्णोदक- ५स, *उष्ण^३- अर्, ३
 *ओप- १शमी, *ओपण-
 ओप (र>)नी-, उपस् पास्-
 -पस कौस् ९१, १ [५- अर्षि,
 अर्षित, उर्*xx], औपस- रीद^३,
 उपस्य- २आर्षिन, १उपित^३,
 २उपित- √व् (दीप्ती) परि द,
 १उप- √व् (वधा) परि द,
 २उप- √व् (दीप्ती) परि द,
 उष्टि- √व् (दीप्ती) परि द,
 १उरट्ट^३- इन्, १अध*xx,
 उष्णिञ्- (> औष्णिव-).
 उष्णिह- अतुष्टुम्^३, आर्षी*xx,
 औष्णिह- आतुष्टुम्, त्रैष्टुम्,
 पौष्णल, उष्णीप- १उष्ण,
 २उष्ण*xx, उष्णमा(ण>)णा-
 √व् (वधा) परि द, उर-
 १उष्ण, उरुयामान्- अर्, ३
 √उह (वधा), *मोह- सप्

√अव् (परि) द, २ऊत, ता^३,
 *ऊत्-सर्ग- अर्, √वृत्(परि) द,
 ऊद् भासिन्- उद्, √गार् (परि)
 द, ऊघन्- अर्षि, ऊन, ना-
 अर्, अर्ष, १अर्षन्, अर्षम-
 माय*xx, १ऊ(न) त्रिशक्ताम्
 निम् ५, १० ३, ऊन १आशर^३,
 ऊनपोषण^३- > *न^३- अर्,
 ऊनाधिक- एरुदि, ऊनार्थ- पूर्ण^३,
 ऊप-मथित- उप/मत् परि द,
 १ऊरु- अर्, उह्ण*xx, ऊर्ष-
 वहु, ३ऊर्ष-> *मोर्षावन- इक^३,
 तुष्ण, १ऊर्षायु-> और्षाचव-
 वेन सप् ३३, ६७ [५- त्रैशोक],
 √ऊर्षु अर्, अर्षि, प्र, प्रत्यप, वि,
 उर्ष, ऊर्ष, अर्षि, अर्षि*xx,
 और्ष- और्म^३, ऊर्षास्तु(क>)का-
 का वैपी १०, ६ १, द्विषी ४,
 २, १५, १, १ऊर्षु, १उर्षा, (न>)
 ता-, ऊर्ष- अर्षि, तर्, दर्, ३
 १दण्*xx, ऊर्षवपा(उ>)का-
 रण, *ऊर्ष इमं, ऊर्षगामिन्-
 अर्, ऊर्षदेह-> और्षदेहिक-
 शापित^३, *ऊर्ष द्वार- १एर्,
 *ऊर्ष पुण्ड- इन्, ऊर्षर्षम्,
 *ऊर्ष-सब्द- मध्ययान, ऊर्ष
 शोषम्, *ऊर्षा(र्ष-अ)स- अर्षि,
 ऊर्मि- वलात्, पाष, महर्,
 *ऊर्षय^३- > *ऊर्षय मोह^३-
 चात्तात्^३ भासिन्, √ऊर् >
 उप- पाणि, उपर- अर्, कर्ष^३,

ऊ

ऊ- मा^३, उकार- अर्, ईकार,
 एकार^३, *ऊह्, *ऊह-
 *ऊह-, *ऊह-, *ऊहमान-
 नि, १ऊह- √ऊह (प्राणो)
 परि द, २ऊह^३, ३ऊह-
 √ऊह (वितर्क) परि द, १ऊह-

a) पाठे वैप १ युगम् काठ २ १५ डि द । b) ५ ७४३ उह दस-> अर् > यन् द ।
 c) पाठे वैप १, २०४४ प द । d) = औपधि विरप । e) = पिष्टमय । f) = [सवमृप] गामन् ।
 *उपति- इति नील । g) ५ ७४८ यनि सल-सोष । h) = २ऊअर्- । i) ५ ७४९ २c>d द ।
 j) ५ ७४९ यनि सल्ल्यातरेत द । k) ५ ७५० ज द । l) ५ ७५२ यनि सल्ल्यातरेत द । m) ५ ७५२
 प्णा > यनि द । n) कर् । o) भूतेर्षं द प उल (पा ५ १, ८०) । ५ ७५२ n नेष्टम् । यनि य प्राति
 द । p) ५ ७५५ यनि स्वण शोष । q) सप आश्री ७, ६, १ भाश्री ७, ५, २ *शुकाम् इति पाठे ।
 r) ५ ७५६ २>यनि द । s) ५ ७५७ ५-> अर् > यनि द । t) वैप १ द ।

१न०, भिन्न०, १कामन्- वन्त-
 रेण०, २उद्- वापुसता०, ३ि०, वी०
 ४स०, ऊष्मप्रदायि (१ >)नी०-
 ऊष्मल०- २ऊ मन्- ऊष्मिण०,
 ३ऊष्मरथ०, वपात्रित०xx, ऊष्म
 (क)- निद्, वरा०, ऊष्मपर-
 मन्, ऊष्मप्रत्यय- अकन्त०, ऊष्म
 वत्- वन्, ऊष्म स्वर-वर्त्त०-
 कार-ऊष्मा(प्रथम) वस्व(स्था वा
 लो)०, १ऊष्मक- ३ऊष्म०, ऊष्मि
 वस्- √वृष् (वषा) परि द,
 √ऊह् (प्राण) ऊहणे भाष् १
 ११ ५ [अभि०, अनुपरि० अनुप्र०,
 अनुवि०, अ०, अगो०xx] १ऊह
 वा- १एह०, ऊह-अपीत०, अन्-
 पुनर्xx, १ऊहक-ऊहण-ऊहन-
 १ऊहरी- १ऊहमान- १ऊहा-
 १ऊहित- १ऊहितवै, १ऊहितुम्,
 १ऊहि(व >)नी- १ऊहण०, १ऊहण०,
 १ऊहण०- अन् १ऊहमान, ना-
 √ऊह् (प्राण) १ऊह- १ऊहि
 तन्- १ऊहण १ऊहण- अभि

अन्, वा०, २उद्xx, १अर्-अपम्,
 १अरण- १अरधि- १वार-
 १वारि(न >)नी-अण०, १अण०-
 १अण- अनेन आषम २, १५, ५१
 [०त- अर्, वण०, सण०, सु०,
 १इत०], आषवेप- उपहृद्य०, अत
 सन्- > १सदनि, नी०- नि०
 माधो०, २०, १६, द्विधो ७, ३, ५०,
 -नी० माधो ७, १, २५, आषधी १०,
 ३१, २, वैधो १२ २१ १७, अति-
 १अथ- १अथ तु- ५ ग४, ३, १६२,
 १अथ- १अथ०, प्रह०, व मग्
 सां व०, अन्मन्xx, १अक्षर-
 अन्, √अप् > १अप्- अत्थि०,
 अन्, इति०, २उद्xx, २अर्चि-
 > ०र्चि- > ०र्चि वृद्धी- निवृत्, १
 १अर्चि- > १अर्चि(र्चि अ)भिन्-
 > १अर्चिभ्या (गि या) म्भाक्-
 ये वा २, १३, १अक् (क)-
 ४त०, अक्त्ववया- प्रवी०, अक्
 धायान- अन्, अनुवसन्तान०,
 १अक् गाथ- पर शत०, अक्-
 द्रव०- अयम् गीष् १, २, ४,
 १अ (वृ >) च- अक्, अत्, १
 अत्, अत्, १अचस्- अत्
 १अचस्(इच्छायाम्) > अच्छा-

वन्, √अप् > अप्- अर् अत्,
 आ०- अर्, अण०, अजिश्यन्-
 अमरीण०, अजीव- आर्, अर् गो०,
 अण०, २अजीव- यजमानपाठ०,
 √अप् अण०, १अण०- अण०,
 अण०, उतम०xx, १अण- अण०,
 १अण- अणित्प्रमाण- अण०,
 २अण- अणित्प्रह०- अणित्-
 -अण या छ, २७ [अण- अण०,
 अण०, अण०xx] आर्चव- अण०,
 अण(व्य >) अण- स्वयमावृणा०,
 अणुकाल- अविद्येण०, अणुप्रह- अणि
 वल०, अणुपणु- दिगाराय०, अणु
 यान- द्विदक्य०, अणुम्, अणुर्चि-
 -र्चि अण २, १६, १अणु-अण-
 प्रवराध्याय०, अणिवि- अण०,
 अणुवान०xx, अणिव- अण०,
 अणिव दीक्षित प्रहचारिन्- अण०,
 √अप् अण०, प्रति०, वि०, अण०,
 १अर्च (न >) नी- १अर्चव-
 अर्चि०, १अर्चपति- १अर्चवितुम्,
 १अर्चवित्, १अर्चुक्, अण०,
 अण- अणि- अणित्थेय०,
 १एक०, अणि०xx, अणित्थुन्,
 १अणु(द्वि-अ) अण०- अणु वैद
 १, ७ ९ १अण- १अणमान-

ऊ

न० अण०, अणार- अणार० अणार०
 रेण० √ऊ ऋच्छ् अण०, अभि०,

- a) १ ७५९ यनि शेषे । b) १ ७६० ऋ इत्यत्र ऋस > ऊष इति ऋ । c) १ ७६० १ (वा क लो) > यनि इ । d) १ ७६० यनि सख्यासनेत इ । e) कर्त्तरि ऋः । f) वैष इ इ । g) पाणे वैष इ ११७ क इ । h) १ ७६५ ऋि-, णी- > यनि इ । i) तथा ऋि <> णी इति षभि । j) १ ७६६ यनि स्थल शेषे । k) १ ७६७ यनि सख्यासनेत इ । l) नाप (१ 'अर्च' यथात 'अणवेद') । m) नाप ('अणवेद-गात्रि' [अणवेद्वि]) । तत्र उप (√अर्च 'वाचन' कर्त्तरि >) 'अर्चिन्- > यनि । n) व्यप (अणवेद) । वस उप = पाठ । वा 'पाठाभ्यास' इति । सथ १ सूक् भाक > अ सूक्भाण इति सथिच्छद-शेषे । आदिप्रथम बदत्त आदिष्व'- इति नाम, तद् अणवेद सर्वादिपठितवाऽऽप्रयोग वाऽऽसूक्तभाक् च भवति इति भाव (वैदु पाका [४ ३, १०४] अणाम- [व्यप = अणि] > अणामिन्- [= अणाम प्रोक्तेदतासाभ्येव] इति एष इति एक प्रथम अणामाणव- इति उप इति च) । १ ७६७ यनि शेषे । o) उपमानसनात् १ > १ इ । p) १ ७७५ 'वस एष = एष' इति पठनीयम् । q) १ ७७५ यनि सख्यासनेत इ । r) १ ७७५ यनि शेषे । s) १ ७७५ यनि शेषे । t) १ ७७५ यनि शेषे । u) वस ।

ऋषीस -> *स-वष- ऋतु^०,
 ऋभु-सु द्वि^० १७, ७, १० [*भु-
 इन्^०] आर्षेव-गाथदिन^०, तावित्र^०,
 आर्षेवामय- न्नवाति^०, आर्षेवी-
 (य>) वा- गाथदिनीया^०, ऋदय-
 १ अर^०, गर्दभ^०, √ ऋप् ऋभि^०,
 २ उद्^०, ३ प^०, ४ रि^०, ५ वि^०, * अर्षे-
 * ऋपव- ऋपभ, भा- १ अर^०,
 दरा^०, मरत^० x x, ऋपमैरस^०,
 ऋपि- इन्^०, ऋतु^०, उच^० x x,
 आर्षे- वा ४, ४, ६२ [*पं- अन्^०,
 वरप^०, क्षत्रे^० x x], आर्षे ->
 * आर्षे (पं-अ) विलोप- अन्^०,
 * आर्षे-पोथ- * आर्षे प्रवर- ३ स^०,
 आर्षेव- अध्याय^०, अन्^०, १ एन्^० x x,
 ऋषि(क)- वस^०, ऋषिहृत- ऋन्^०,
 ऋषिगण- प्रायुष^०, ऋषियोग-
 ३ स^०, * ऋषि-हन्त्रो दिवता- प्रायुष^०,
 ऋषिष दोर्वेव^०, ऋषिदेवता-
 -नयो पावा ३, ४, ६७, * ऋषि-
 पञ्च- सवा^०, ऋषिपुत्री->
 * रिस्^०, * ऋषि राखन्ध- ४ रा^०,
 ऋषिभिद्वन्द्वपञ्च ज^०, ऋषि-
 स्तोम^०, * ऋष्य (पि अ)-धक
 वृत्ति-हृद- नन्ध वा ४ १
 ११४, ऋषि- आञ्ज^० श्ल^०,
 ऋष्य^०-

ऋ

ऋ २ अर^०, ऋ^०, ऋकार-
 ऋकार^०

इ

इ > * कार- अकार^०, * इकारो(२-३)
 पदेश- वा प्रापवा २, १, लवर्ण-
 अ^० वा ४७, ३, १

ए

ए आ^०, इ^०, ए(आ√इ), पेतु द्वि
 २, १७, ४^{१२}, १ आय-> * भावा
 (य वा) वाय वपथव- तद्^०, भावप्-
 ऋन्^०, २ भावन- पुनद्^०, १ एत-
 नथा^०, एव भावप २, १५, १^१

१ एरु, कव- वा ४ १, ३५ [*क, का-
 अन्^०, उतन^०, १ एन्^० x x], १ ऐन्ध-
 तद्^०, शब्द^०, एककपाल- अ-वा-
 यात्वं वाहणी^० x x, * एक-कपिल^०-
 आहिर^०, एरु- इड^०, एक-
 कार- रानि द्वि^० २, १, ६०^१
 [*च- नोदना^०], एकस्तीतक^०,
 एकप्रथि- न्धि वीए २ १, २९,
 * एरु चिता- तावान् वेपु ७, २, ३,
 एकविंशत्-> *स- एरु वरिठ^०,
 एकरव- अर्षे^०, इज्वा^०, वमैर्^० x x,
 १ एकदेश- अगार^०, इतुवा^० x x
 एकदेशत्व- वन्धना^०, * एक द्वि-
 ससक- ४ स^०, एकपद्-> * वदा-
 द्विपदा^०, २ एकपद्- २ द्विपद्, एकपल-
 नोमु^०, एकपल- रणुवद^०, एक
 पालि^०- इड^०, २ एकपद्- २ अर^०,
 एकमूल- १ इड^०, एवराज-> * ऐरु
 राव- ज्यम् भापथी ५ १९, ४^०

२ एकरात्र- पद्मरात्र^०, एकवर्ष- ननुपा^०,
 लृच^०, * एक लोचन^०- लृचन्^०, एक-
 यचन- द्विवचन^०, ननुसन्^० x x, * एक-
 वचनन्- द्वितीया^०, एकव्यय->
 * वयन्^०- इहाहोर्षे^०, एकवाचय-
 त्व- चोदना^०, एकवासस्^०- शुक्ल^०,
 * एरु विंशत्- ननुविंश^०, एकविं-
 शति- न्तिम् वैधी १८, ३ ४ [* ति-
 दिवस^०] एकविंश- अन्^०, १ अर^०,
 उवोतिद्योम^० x x, एकविंशो- कन्वा^०,
 * एक-विनोद^०- जगत्स २^०, * एरु-
 वृपय^०- देशान्तरस्थ^०, एकशत-
 प^०, २ एरु शत- अयभ^०, एरुशय-
 टभयतोद^०, द्विप^०, * एक शीर्षे-
 विविध^०, एकशु(इ->)ज्ञा- द्विशु^०,
 एकशेष- * एरुशेष-भाव- अन्^०,
 २ एक धुति-> एकधुयव^०,
 * एक-सहस्र^०-शयभ^०, * एक-सिद्धि-
 त्व- १ पुशार्थे^०, एकशक- राजारी^०,
 सुकर^०, एकद्वय- विल्लन^०, १ एक-
 स्वर-> * स्वर्ष- वरवार^०, एकाकिन्-
 अन्^०, १ एकशर-> * श्री/शू >
 * भाज- क्षेत्रसमो^०, एकादशन्-
 नव^०, नवन्^०, १ एन्^०, एकादश-
 अष्टाक्षर^०, ऋपम^०, वमै^०, त्रि^० x x,
 एकादशी- नवमी^०, मार्गशीर्षशुक्ल^०,
 पौडशी^०, * एकाव(अरु)- निका-
 र^०, एकादशक- दिन^०, एकादश-
 रात्र- ऋतुनाम्^०, एकादशवर्ष- उन्^०,
 * एकादश शत- एकादशन्^०, १ एका
 दशाक्षर^०- नागि शुम् १, ६ १८^०,

a) इ ७०८ नन्वा-> वनि इ । b) वृण इति मेह । c) इ ७०९ वै-> वनि इ ।

d) इ ७०९ वनि न्यासक्रम इ । e) इ ७०९ ऋ-> वनि इ । f) इ ७०९ इ-> इ इ । g) इ ७०८
 h, j इ । h) इ ७०९ वनि स्थल शोच । i) इ ७०८ वनि कुर्यासकेत इ । j) पाप्मे इ ७३२ d इ ।
 k) वव (ऋपि) । l) इ ७०५ वरप एककपालानि > वनि इ । m) इ ७०६ ऐ-> इ इ ।
 n) वस । o) पाप्मे वेप २, ३ स आतिष्ठु टि इ । p) स्वार्थे क. प्र । q) वस वा वस वा ।
 r) = एक विंशति । s) कप । t) इ ७०७ ए-> वनि इ । u) = एकसहस्रतम । v) इ ७०९
 स्थलेऽय वनि इ ।

1काप,पा- ऐन्द्राम^०, 1केन^०,
 छरु- ✓के (परि.) द, रईरस-
 उद^०, उष्णोदर^०xx; 1वांस^०-
 पाउडु छ, ५३^० [स- प्रमह^०]
 फारस- आरनाल^०, उद^०,
 २शर^०xx, कारयकार- 1मुवर्ण-
 कार^०, *करुध^०- ४६^०, *कनाट^०-
 1रेण, कनुद्- उष्ण^०, त्रि^०,
 *कनुत् प्रवित्रो- 1अ^०, रम्कुम्-
 जाप्य^०, त्रि^०, 1अउ^०, 1शकुम्-
 गायन^०, गह्व^०, कनुम्भवी- पुरस्^०,
 पुरस्ताद, रुकुम्भ (वसा)- सविनु^०,
 कयुह (वसा)- सविनु^०, रिकक्ष,
 क्षा^०- अथि^०, अवि^०xx, कद्व-
 दयन्^०, क्षिरय^०, *२रुक्ष^०- नदी^०,
 कस्तुतु- पाग छ, ३, १६२^०,
 रिकु- कलवि^०, १११^०,
 ३६४^०xx, २रुक्ष- > काङ्गावन-
 गार्थ^०, रुक्षण-३रक^०, रुक्षाल-
 गो^०, *✓कच् (दाही)> 1कच-
 अथि^०, २रुच^०- वि^०, रिकच्छ-
 -च्छेन^० [रु- नदी^०] कच्छव-
 1अवट^०, कृ^०, 1गोधा^०xx, ✓काङ्
 पाया भा पर भरे, कञ्जाल-
 कट- आक्ष^०, कलाव^०xx, 1कटक-
 नी^०, कटु- श्लेष्मात^०, 1कडुक,
 का- 1अ^०, कपाश^०, २केल^०, ✓कद्
 > कठिन- 1अ^०, कठ- वापुष्प^०
 प्राच्य^०, 1मैत्र^०, कडार- पाग २,
 २, ३८ [र- ३ मील^०] ✓कण्

(घषा) कनु^०, 1कण- चर^०,
 1माप^०, मीदि^०, *कपो (ग-डो), दन-
 शुद्धोदन^०, कण्ट- दुनाम^०,
 २कण्टक^०- 1अ^०, 1पुशा^०xx, कण्ट-
 किन्- श्लेष्मात^०, *२कण्टक^०-
 हंस^०, *कण्टका^०- बृहत्तरणार^०,
 दव ती^०, *कण्टारि^०- बृहत्^०,
 *कण्टारि (क>) का^०- लघु^०,
 *कण्टूक^०- पाठा^०, ✓कण्ट,
 *कण्ठा- *कण्ठु- २द^०, कण्ठ-
 रूप^०, अय^०, आ^०xx, कण्ठ-
 1अ^०, 1खोरस^०, दोर्ध^०xx
 *1रुक्षुपमाहक^०- कृ^०, कण्ठ-
 अत्रि^०, आत्रेय^०, कण्ठ- >
 वायव्योमावन- नी कपायने ५.८^०
 कत- 1अ^०, 1उर^०, खुर^०, कतिक-
 ✓कथ^०, *कथिन्- वि^०, ✓कथ^०
 कनु^०, नि^०, परि^०, प्र^०, तम्^०,
 *२कथक- तरार^०, कथन-
 *कथयन्- कथा- 1अ^०, कथ^०,
 विष^०, कथित- 1अ^०, रिकथक^०-
 > वायव्य- यार^०, *कथ्य^०-
 वरुक्ष^० वाष्पित^०, २कथु दू- 1अ^०,
 1तैतल^० रविमता^०, *कथुक^०-
 त्रि^०, *कथूल^०- पूत^०, ✓कथु >
 कनक- सधोप^०, लो^०, हुत^०xx
 *कन- > 1कनिष्ठ- यथा^०, कनि
 (छ >) ठिका- 1अ^०, कान्ठि^०,
 अहु^०, उप^०, कनीयस- कनु^०,
 अग्रधान^०, 1ए^०, २कनि->

२कम्पा- उप^०, कापुरस^०,
 क्षत्रिय^०xx, *कम्पा (न्या-प्र) लंकार-
 1अ^०, २कनिष्ठ-> कनिष्ठानां
 (माल्यस्तोम-) शोधो १४, ७२,
 1^०, २कनीन-> कनीन- हस्त^०,
 ✓कन्ध > कम्पा- पुक्कुट^०,
 पैडालिनक^०xx, ✓कन्ध >
 1कन्ध- कृष्ण^०, 1पान^०, 1मूल^०,
 १रन्तुक^०, *२रन्तुक^०- >
 *रन्तुक कौटा- प्रेङ्गताण्डव^०,
 कन्ध (र>) गा- वेद^०
 कपर्द दी- च ३^०, पु^०, कपाल-
 पा ६ २, २९ [र- 1अ^०, वाहार^०,
 1कण्ठ^०xx], 1कापालिक^०-,
 कपालयोग- 1उतर^०, *कपाले (ख ई)
 धर- आत्रिस^०, कृपि- विद्रवाह^०,
 कण्ठ- (> कापी- पा) थप
 छ, १ ७३^०, कपिसीर्षी- बलकु^०,
 २कपा, *कपिकत^०- (> कपि-
 काय-), रिकपिञ्जल- 1कक^०,
 कण्ठ^०, 1वातरि^०, कपितथ-
 २अर^०, 1शिरीष^०, कपिला-
 अति^०, कपिवन-> कापिवन-
 आत्रिस^०, बुधि^०, कपिष्ठल-
 म्र^०, *कपीत^०- (> कापीत-)
 कपीत- 1काव^०, खट्वा^०xx
 १रूपोल- पल^०, बलु^०
 २रूपोल-> *कापोल- हा कथु
 ३ ५ [र- महत्^०] कपा- वात^०,
 *कपल^०- हात्रिण^०, ✓कम् अउ^०,

a) पृ ८२४ वन सट्यासकेत द । b) सार्थास्ये प्र । c) क्ले < ✓वस । d) = प्रमोद- ।
 e) वैप २, १०८० न द । f) पृ ८२६ वनि सट्यासकेत द । g) = शुभचरण । h) पृ ८२६ वनि
 स्वत शोष । i) पृ ८२७ वनि सट्यासकेत द । j) पृ ८२७ - रुचन > वनि द । k) तु BPO ।
 पृ ८२७ ✓कच ✓रन्तु द^० टति नष्टम् । l) पृ ८३० वनि सट्यासकेत द । m) = प्राण विशेष- ।
 n) = शोधवि विशेष । o) कथ धु च २ । p) पृ ८३२ कपाय ३ ५ < > वनि द । q) पृ ८३३ वनि
 सट्यासकेत द । r) वैप ३ द । s) = तल । t) पृ ८३६ सय *शाम् हत्यपाकरणीयम् । u) १ ८३७
 वनि सट्यासकेत द । v) नाप । w) पृ ८३८ वनि सट्यासकेत द । x) तु पाणि । वाप्य- इति
 माण्डा । y) पृ ८३२ १ द । z) पृ १५८३ न द । a^१) = १६मल- ।

अभिं, अभिसप्तं, निं, प्रतिं,
 क न्त- १४५त्, २३०, २७५,
 कानि- १५५त्, १५५- ००म
 वैयु द्, १ ५५ [०म- १५५,
 २४६ति, १५५^{००}×], *काम-
 मा- १५५, *काम-राग द्वेप-
 खोम मन्तर- जित, १कामरूप-
 *काम-विद्ध- अभिसप्त, कामा
 र्कन्- १५५, कामाग चेतत्-
 काम- १५५, कामपमा- १५५,
 कामिन्- अतन्त, आयुत्××,
 कामिनी-, रकाय, ग्या- १५५,
 यर्, १मस्तन्, ररस्तोप, वम्
 अतु, कम्क- > कामरावन-
 शोमत, वमपडलु- तद, शो,
 वहरपाळं^{००}××, १कमल- पावा
 ४, २ ५५ [०-उदति^{००}, नीलोत्पल,
 सुख], *कमल-खण्ड- पावा ४, २,
 ५१, २कमल- १, √कम्प अतु,
 शतुप अभिं, अभिं, २३३, प्र,
 निं, १५५, कम्प- १५५, २३३, उदात्,
 निम्प×, कम्प- १५५, आश्रीव,
 २३३, २३३ (>) पा, कम्पवत्-
 *कापा-, कम्पित- १५५, शक्ति××,
 *कम्पित- शिरत्, *कम्प, कम्पल-
 क्षीम, ५२, कम्प×× कम्पवत्-
 १कम्पित^{००}, कम्पु- सुवाम्, ००,
 कम्पुर्ध- वै, कम्पोज- पा ४,
 १, १०५, पावा, पावा ४ १, १०३,
 कामवोद- १५५त्, *कम्पोजि-
 क्तपर्थ, १कर- > कम्प-
 कम्पित^{००}, ४कर- √कम्प (२३३)

परि. द; करव- १५५,
 करज- १५५^{००}, निम्प,
 १५२^{००}, *करज(क)- करवीर,
 २करव- √कम्प (विद्धे) परि द,
 करवड- औचर्मत्, करवन्,
 १करव- २३३, रातम, २३३,
 करव- पाणि^{००}, करवम्-
 कम्पु^{००}, *करवम कालु- ता,
 करवीर- > ५ काजक- कौ, १
 परव- २३३, कराल- १५५,
 १५५, करली, करि-, १-
 √कम्प (परि) परि द, करि-
 शमीपर्थ, करीर- > १- अत्र
 यत्, सत्, १करीर- अतु,
 १ममत्, *करीर- १- २३३^{००}
 *कम्प- (> कापावणि-), २कम्प
 (>) पा- दीत^{००}, *कारण-
 १मत्, करुता, पा- (> का
 १, ५) > शी, पो- पा)^०, कम्प-
 वलीर, कम्पु, न्यु- औदुम्बर,
 कुवत्, २३३, कम्पु- शानि
 शत ४, १९, २, १कम्प- >
 *कम्पु(वी-का)दि- १५५, १कम्प-
 १५५, १कम्प, १अत्र××, २कम्प-
 त्तन्, ५२, ४कम्प (क)- १५५,
 *कम्प-कोश- चित्तयूतोपरार्थिन,
 यकम्पु(त)ता- १५५, *कम्प
 पुव- ४५, कम्पधरताविशु-
 रूप- १, *कम्पि आ, *कम्पि-
 कम्पुता, कम्पि ता, *कम्पि-
 ४५, *कम्पि- ४५, कम्पि-
 कार- पाठा^{००}, कम्पि- ४५

√कम्प (उदने) परि. द, कम्पित-
 √कम्प (वेधे) परि. द,
 कम्पु- √कम्प (परि) परि द,
 कम्पु, २कम्प- √कम्प (उदने)
 परि. द, १कम्प- ४५५,
 तित^{००}, पांमु^{००}, *कम्प- गोप-
 र- ५५, कम्पित- > ०शो- >
 १कम्पित- शीम, क्षीम, ५५,
 २कम्पित- विश्व, गुट, १५५^{००},
 *कम्पित पात- पात्^{००}, कम्पु-
 चन्द^{००}, कम्पित दत्, कम्पु-
 १५५, *कम्पितोयामि- शानि
 गिरि^{००}, कम्पु √कम्प परि द
 कम्पित- > १कम्पित- शम्प-
 धं, शम्प, कम्पित, कम्पि प्रत्
 √कम्प (परि) द, √कम्प कम्पु,
 शम्प, शम्प, निम्प, परि, प्र, वि,
 सम्, कम्प, कम्पित, *कम्प-
 *कम्पित, *कम्पितम्प, *कम्प-
 विश्वा, *कम्पितमान, कम्प-
 शम्पित, १मत्, कम्पित-
 तमवतोत्पत्, १कम्प^{००}×, कम्प-
 शम्पित, ५२, १५५^{००}××,
 कम्पितकम्प- पा २, ४, १९,
 *कम्पितो (श-उ) परमान- प्रोप-
 रयाम, कम्पित- ऊर्ध्व, ५५^{००}
 कम्प- ५५, कम्पितमान,
 कम्पु^{००}×, १कम्पित- ५५, कम्प-
 ५५, पाठ, कम्पित- कम्पित,
 गोधूम, वाप, २३३, कम्प-
 कम्प, १कम्प- ५५, *कम्पि-
 कम्प- ५५, २कम्प- शम्प,
 कम्प- ५५, २कम्प- शम्प,

०) मेहु ० उ तरेय समस्तामिति । १) वृ ८४२ यनि सत्पासकेत द । २) वृ ८४३ वृत्ते > याव
 द । ३) अन्व । ४) वृ पाका । ५) वृ ८४४ २३ > श्र द । ६) पाभे वृ १२० ५ । ७) वृ ८४५
 यनि द । ८) नाप । ९) =ररज- । १०) वृ ८४६ अ- > अर्थे > यनि शोष (द्व यासि
 १ २६) । ११) वृ ८४७ शो- > यनि द । १२) स्वाभे प्र । १३) वृ ८४८ द । १४) वृ ८४९ यनि द ।
 १५) वृ ८४६ यनि स्थल शोष । १६) वृ ८४९ सत्पु- > यनि द । १७) =रोग विशेष- । १८) नाप (पदावा
 जोर) । १९) =देश विशेष । २०) अ १ मेष्टम् । २१) वृ ८५२ यनि सत्पासकेत द ।

१वापि- १अभीर्षी^०, युर^०, १रु^०, कलिङ्ग-क^०, गभारि^०, रगन्धार^०, कलुष- १व तं, उरीरो- ररापात^०, शिस्त^०, सीरचरवाम^०, कृत्क- गौरार्ष^०, लि^०, १भु^०, र्श^०, यरपक- ✓वल्ड (१ र.) द, किरपन्ता अ ७०^०, १, ४ परपथितरै, कतिन्- द^० ✓वल्ड (५ रि) द, ✓कल्मल- २वे^०, दह्रमय- १अ^०, संसे^०, नि^०××, १कलमाप-१अ^०, १मा^०, धरमापो- १अ^०, क(त्य>)रघा- १अ^०, कल्याण- १अ^०, १द^०, कल्याण- २ या ५, १७, पडवाम- प्र(ज >)जा^०, यल्याणोति- नि मा ५, १७, कयक- उत्तरा^० पयच-वांस^०, राह^०, प्रस्त^०, १ओह^०, १रुप-शन^०, रुघाट-१उर^०, १का(द-अरि >)री^०- १अ^० कवि^०, काव- श्रीर^०, काव- पाग छ, १, ७३, १कवि-वीर^०- पाग २, १, ५३, १कवि मली- गैरि^०, कव्य- १ह^०, ✓कश^० प्रति^०, १क^०, कना- २अ३^०, १भु^०, १कश (वरा)^०- युर^० कशाय- (>कासाविर्- पा) कशिपु- शा^०, हिरण्य^० कशेर-> १कशेर क- भूदाह^० कदय- अदि^०, वर^०, १कदय- कानिरेय^०, अदि^०, गार्म^०××,

✓कपू २^०, नि^०, नि^०, गम्^०, १कय- कश्म^०, १कपीरु^०, १कलम्^०, शर्व^०, १वपमाण- १कव, १गाग- १कापम्, निगा^०, कल^०, १कावि- १द^०, १कप- १अ^०, १कषाय- १कयु^०, १र^०, १श^०, पला^०, कापाय- १द^०, १कापाय-पाल-प्रश-धेव- तिदण^०, १कापायवास- वति^० ✓कपू नि^०, वि^०, १कसत्- १कयन- १कतिव- १कहा- १कवि- १कास^०, १कासिन्- १कसुक- १म्, दह्रा^०- व- वी^०, १काक- अदि^०, १^०×× काविणी- अथर्ष^०, काकुद्- २व^०, ए^०, वि^०, १काकुथा^०- अथ^०, ✓काह^० अत^०, अमि^०, अ^०, अ^०, १काह- १कटण- पुनलाभादि^०, कगदि- पल^०, १काह- १काह- १पुष्टि^०, १कादि^०- मोह^०, विज^०, गानी नवा^०××^०, १काह^०, १काह^०- १काह^०- पाग^०, काह^०- अमि^०, अ^०, आगत^०, मो^०, रज^०, लो^०, १काहन(न-अ)मह^०- अत^० .. वि^०, १काही- पा, पाग छ २, २, काहुक-काहमथि- द्द^०- द, १काण पा- १अ^०, द^० धरण द^०, १काण्ड- अयुत^०, १अयु^० अतुष्ट^०××, १कपी- १हृवा^००

काण्ड^० पावाछ, १, ६०, १काण द^०- तरार^०, काण्डमापन- धाणोवकरण^०, काण्डमापन- शाङ्गायन^०, १वाति^०- १वाम^० कादूरक- वदर^०- द. कानन- १गिरि^०, वन्द^०, १शैल १कावधुपुदुनीट-अ-श्यापदादि का^०(विन्-तरार^०, नापित्य- कविन- (परि)द, कापील-रपील- (परि) द; कापोल- २कवोल- (परि) द, काप- (> १पी)- काय- दि द, २राम^०- १का^०, १वामरूप^०- नेवा^०, कामवे रवि^०- (> १पीव-), कामशि^०- १काम्पील^०- > १काम्पीली^०- २काम्पील^०- पलाश^०, रवाशा^०, वापीलसाता- पय^०, २काय (वप्रा)^०- अति^०, आ^०, तेज^०××, १का (पर>)पिका^०- कारिता^०, कायस्थ- तमिथु^०, काय- ✓वि (परि) द, ५कर- ✓क(विषये) परि द, कारण्डव- पाग ६, ३, ११८^० [१- १का^०, १वक^०, हस^०], १कारम् ✓क (करण) परि द, १कारम् ✓क (विषये) परि द, वारघाषलि- क- द. कार- वनहार^०, कारिणी- ✓क (करणे) परि द, काकप- २क- पा- (परि) द, कार्मण्य- ✓क (परि) द कार्मर्ष्य- काण्ड^०,

- a) दू ८५४ वनि द । b) दू ८५४ -मि. >वनि द (हु विरि प्रह) । c) कप १ द ।
- d) दू ८५४ >e >d द । e) दू पागम । f) कर्तर कृ। g) = परि विषे, कृद-वन्दु । h) दू ८५६
- व->वनि द । i) दू ८५७ अय समादिह द । j) दू ८५७ वनि लयासरेत द । k) दू ८५४
- क्या>वनि द । l) नाग । अर्ष्य लु वा । m) नाग (सुदर-) । n) कष विषेपणस परमिपात ।
- o) सल्याशानो निरेस द । p) वनि स्थल-मोष । q) प्यु वैर १, १००८ दू द । r) अद वनि. द ।
- s) ०२५ (अरेदेवाऽवतन-) । t) = देश विषेय । u) दू ८६० a. कामेरणि (दू ८६२ नेहम्)>वनि द ।
- v) दू ८६२ >० >० द । w) अर र्द > b द । x) अर १० > f द । y) = वरी- वा मूतमन मेर- वा ।
- z) = हुसिद-मेर- । तस्थेयसीय प्र । d¹) अत्र वनि द ।

विभक्तं, शकाल- पाप ६,२, २९
 [७२-१५°, ३अ, ४मि°, अमि-
 प्रययन्*xx] *काल-वपाल-भगाल-
 तारा- नवु पा ६,२, २९; काल-
 काम-; *काल-नय्या- प्रायत्-
 म्नाचर्य°; कालनियम- १६°;
 *काल-निर्देश- धृति°; *काल-भूष-
 रुच-वर्षी°, कालविशेष- कर्षण°;
 *काल-न्यपेत-१६°; *काल स्वान-
 तद्°, कालनियम-अपचार°, २५-
 ल-तिल°, काली- भद्रा°; कालक-
 पुमु२°, स्वात्वा°, कालापस- सीत°
 शकाल-, कालन- ✓सू (परि.) द.
 कालयय- चिरित°, कालयि-
 त्थय-, *मिवा प्रन्. ✓वसू
 (परि.) द.; ✓वास् अति°, अतु°,
 धमि°, अय°, अा°, २२द्°, उय°,
 नि°, प्र°, प्रति°, वि°, लम्°, संप्र°;
 १काश- ४त°, कानन-कु°, *काश-
 यत्-, १काशि- अवाचीन°;
 *काशित-, *काशित्- कृषण°;
 *काश-; २काश- २शु°, १उश°,
 दीर्घ°, मयूरालाक°, १मुश°, ३काश-
 >°ल-कृत्न- पा, पाय २,४,६९;
 कशमर्थ- अर्क°, श्वाप- ✓वय
 (परि.) द., *२काप- क्षाम°,
 कापम्, कापिन्- ✓वय (परि)
 द.; काष्ठ- पाप° [°ष्ठ- अमि°,
 १अर्क°xx] ✓कास् परि°, २कास-
 श्चन्°, २शक°, *कासव-;
 कासिन्- ✓सू (परि.) द.
 ✓कि मा°, नि°, किशुक-जलन°

सु°, किकिदीचि-> *मिकि-
 दीमिदीमय- ४७°, *मिकि कुर्वा-
 णस्त्व अरुन् घरम् था ३५,
 २, १; किञ्चलक- वनक°,
 १३अ°, *किञ्चल-नृगं- हा-
 वि**श°; *किण- नि°, किरय-
 तण्डुल°, तोरमन्°, १३१द्°, ✓किन्
 भा°, नि°, प्र°, वि°, कत- धेयम्°,
 ४त°, सु°; *केतन-; केत- सु°;
 केतु- पाठभो [°ष्ठ- १अ°], चिक्-
 लक- उस्वष्ट°, पुंश्चली°, २थ°;
 *किरिस्त्व-; चिक्सा- १अ°,
 कृमिशट°; किकिरित-; *किकि-
 तित्- २अय°; शकितय- १अय°,
 पुण्वाशिन्°, तरर°, राजन्°
 शकितय- तिङ°; शकिन्नर°-;
 *शकिन्नर°- कप्सरण°, यश°
 किम्-> ३क-> कस्मात् १अ°;
 *क-य(त्)>ती°- कतम- कतर°,
 कति°- कतिपय- पा २, १, ६५
 [°य- स्तोत्र°]; कया यथा°;
 कद्->कच्चि १अ°; कद्दय-
 जल°; कयाशुभीय- विद्वीव°,
 शविहव्य°; कारा°; किम्-
 गुणद्°, किशुच- १अ°; किञ्च
 १अ°; *किञ्चि पाण्डुर-वेज-
 -जत अ ५२ ३.१, १कु- नन्°,
 कुतस ३कुतय>वीतस्कुन°-; कुनो-
 भव- उत १अ°, *कुन्दिदि- १मिदि°,
 *कुन्दार-प्रवेज- अमिस्**न°,
 कुनस- २वन्°, *किन्- १अ°;
 अमिनिस्कुफ°xx, *कु परण- १अ°

२किर- ✓कू (विशेषे) परि. द.;
 शकिरण- १अर्क°, २सूर्य°; शकिर-
 ण-, निरा-; *शो- ✓कू (विशेषे)
 परि. द.; किगत- मिम्°, मुञ्ज°;
 किरि- अमु°, निर्गलिता°; किल
 मिम्°; *किमिदिशन्- तरर°;
 किलाम-> *किन्- १अ°,
 पुण्डानिन्°; *किलिन्- १अ°;
 किलिवा(किवा)- १२३°, पुण°xx
 शकिशोर- २नु°, ४त°; किक्कु-
 र- अमि°; किललय- २र°;
 कीट- अयम्°, कृमि°xx; *कीट-
 ज- १मावाम°; कीर्त्य ✓कू
 (रुनी) परि. द.; कीर्थ, कीर्ममाण-
 ✓कू (विशेषे) परि. द.; ✓कील्>
 कोल- २द्°, कोलक- आदित्वा°,
 चराम°, तामन°, पीडित°
 कु- ३अ°; कुर- परनिर्दास°,
 १शो१°, *कुंस् पापा. सुरा.
 उम. भापायाम्; *कुंस- अ°,
 १शु°, कुन्कुट- आयोवण°,
 ग्राम°, ग्राम्य°xx; कुस्- शारि°,
 कुशि- अत°, इन्द्र°, २त°, १समुद्°,
 हिरण्य°, *कुह् कुण- लक्ष्मि°
 कुह् कुम- कुसुम्न°, वन्दन°,
 हरिण°; ✓कुच् अा°, २उद्°,
 उपसम्°, नि°, लप्°, *कुच->
 कुचमुगा- इमारी°; *कुचद-
 कुचित-, *कुच, *कोच-; कुचर-
 रोम°; *कुजप- > कौजप- कर्त°
 ✓कुञ्च, *कुञ्च-, *कुञ्चन- आ°;
 कुञ्ज-> कुञ्ज- पाप

a) = विश्वेन्द्र-द्वय । b) कर्तारि भावे वा कृत् । c) कर्षं सु. च । d) पृ ८६८
 पापाम>पनि द । e) पृ ८७० पाठ>पनि द. । f) पृ ८७१ यनि. शंभुशक्तिः द. । g) = नाति-
 भेद- । h) ३क->क-य(त्)>ती- इति श्रेय. । स च एवं शोध । i) देउ. पाठदु ५, ५० <✓के ।
 j) पृ ८७२! b > d द. । k) पृ ८७४ पत्त >पनि द. । l) पाठ? किमिदिशन्- इति शोध. । m) कर्षः
 पृ ११० द । n) ✓पर्वस इति [पथे] B.P.G. । o) = देव-विशेष- । p) व्यय. (शायि- । q) पाठदु ६,
 ११ <✓वल् ।

२, १, ५६ [२- मालानप्र०°, गो०, रघ०, श्वरार०°, गुणल०°]
 ✓कुद् नि०, वि०; *कुटि-
 म्, प्र०, १३; कुटिन-;
 १कुटिन- १म०; *कुटन-; २कुट-
 कुटी०; ४कुट- (>कीटिन- वा.)
 पाग ५, १, ५०; *कुटफ-
 पलाप्र०; कुटज-(>*वीटिन-
 वा.) पाग ५, २, ५०; कुटय-
 पविप्र०; २कुटिटी- [२ी-
 ३पर०, ५०°], १कुटी०; ✓कुट्ट
 भा०; वृट्ट- कर्मन्, १धीव०;
 *वृट्ट-क- म्भार०, रल्ल०, कुट्टिम-
 १कुटार-> *२वृडा (र-क >)
 तिका- १पाद०; १कुटारिवा-
 ✓कुट्ट > *वृट्ट- वृडी०; कुट्ट-
 मल- पाउडु ४, ४६ [ल- वि०]
 *कुट्टमलापीड- तिमि०
 कुडय- ए०°, शर्रोपजीवि०
 कुणप- शेषण०, पयु०, मृ०°,
 सल०, मुरा०; २कुवि- शेषण०;
 *कुविक- २९६; ✓कुण्ट,
 *कुण्डन- श्वर०; *कुविड-
 पुरोयु०; *कुण्डय भा०; १कुण्ड-
 शानि०, श्रीपापनामि०xx; कुण्टी-
 > *कुविडफ- सपिम्, २कुण्ड-
 तरर०; *कुण्डक- १कह०;
 *कुण्ड-मोलका (क-भा) शिन्-
 कुण्डाशिन्-तरर०, २कुण्डल-
 धामरर०, मणि०, रकम०, १कज०,

१कुविडन-उपमःपु०; १कौण्ड-
 न्व- म्भरर० [म्भ- २भागत्य०,
 नारायणीय०, श्राभि०]; कुण्डपा-
 ग्राम०
 कुनप- यद्ग०, धारमय०,
 १शानि०; कुनुफ-> कौतुक-
 पद०; *कौतुक-मन्त्र- १कृ०,
 *कुनुयंक- १राह०; कुनुदल-
 परशास्त्र०; ✓कुनु म्भ०; कुसव-
 म्भण०, किरा०, द्राति०; *कुसवभा-
 १मवि०; *कुसवन्- १श्व०, कुसा-
 लषंभून्, कुसित- प्रत्य०, कुस-
 भावि०, इन्द्रा०xx, १कौस-
 वर०; कुयुमिन्-> कौयुम-
 वट०; कुडाल (यमा.)^म- शीव०
 कुट्टि-> कीटिय- १म०; कुन्ति-
 > *कौन्त्य-; कुन्- डाल०,
 कुण्ट०, श्वर०xx; ✓कुप्
 परि०, प्र०, *कुपित-; कोप- १म०,
 अन्वा०xx; कोपन- सुधातो...
 नि०, शमन०; कुप्य- धन०; कुपेर-
 > १कौपेर- ऐन्द्र०; कुप्य-
 १वड०; १कुमार- १शक्ति०,
 शर्म०xx, कुमारी- शक०, पुत्र०;
 मुडार०, वीण०; *कुमार-य- पाषा
 ५, २, १०९, कुमुद्- पावाग ४,
 २, ५१ [२-उत्पल०, गोशर०xx];
 *कुमुदी(र-उ) पल-कम्भ-मुन्-
 गुणालाप्रदुर्शन०, २कुम्भ-
 उदीवीन०, नावीन०, कुम्भ-भास्य०,

२आग्ण०xx; १कुम्भी- नामा०,
 परि०, २शानाव्य०, शानाव्यदधि०;
 कुम्भपरी०; कुमिन्-> कुमि-
 शयु- श्नुः; *कुम्भी-
 *कुम्भी-क- लशुन०; *कुरक-
 पाउडु ६, ४०; *कुरण्ट- पूलान०;
 *कुरण्ट(क)- क्वास्व०; कुरर-
 विपुशिहर०; *कुरा-य- पाषा ५,
 २, १०९; कुरल- (> ल-
 मस्य-); कुरीर- १कुम्भ०
 १कुय- श्रपि०, २शशि०; धीरन्व-
 > *कुरु- पा ४, १, १०६; *कुरु-
 पथ- > कौरपवि- धार्य०;
 *कुर्म- मं जैत्री ९; *कुदि-
 पाउडु २, ३०; कुदिणी०; ✓कुल्
 व्या०, सपु०, यमा०; *कुल, ला०,
 कुलित-; *कोल- पा ३, १, १४०
 १कुल- अत्यन्तकुमीदि०, अन्य०xx;
 कुलकुल- १म०, कुलटा- १कुमार०;
 कुलपर्म- देशपर्म०, यषा०; *कुल-
 संगल- पशुपाल०; कुलोम, ना-
 १म०, कुलङ्ग- श्वर०; कुलरथ-
 वीर०; कुलाय- श्रानि०, इन्द्रा-
 म्भियो०xx; *कुलाक-वरण- २९०;
 कुलापि (र>) नी- २शुषाड०;
 कुलाल- श्राम०; कौलाल- वृत्त-
 काडु०; *कुलिक- अभिगत०
 कुलिज(यमा.)^म- उ९, पुरा०
 कुलीर- १वेद०; कुलमल->
 कौलमलकर्हिप- गीपुत्र०

a) व्यु ५ १८४ ई.क. । b) ५ ४०८ बनि. तेष्यासंकेतः इ. । d) पाउडु ६, २ < ✓कुद् । e) ररायें प्र. । f) पाउडु ६, १५ < ✓वृद् । g) ५ ८०९ बनि. तेष्यासंकेतः इ. । h) = १जल- इति पागम. । i) नाव. (कुडवलाशर- (वशार्क- १)) । j) ५ ८८० 'शुभ २ ४२८' नैष्टम् । k) नाव. । अर्थः व्यु. च १ । l) भाव. । m) नाप. (चाडु- १) । n) ५ ८८९ न्त-> बनि. इ. । एतदुद्देशेन तु [६. अथ शोषणम् । a) तु पागम ४२६ । b) ५ ८८६ ० नैष्टम् । g) ५ ८८६-युम् > बनि इ. (वृ. ५ ८८५ ० इ.) । f) = शोष-यपवार्थ- । j) कराराय- इति पागम. । i) ५ ८९० न इ. । h) श्वर. । p) = १पुष्प- । q) ५ ८९९ कुर्मः [क्रिप] > बनि. शोषः । x) पागे. ५ ८५० k इ. । y) वैप १ इ. । z) पाउडु ५, ४० < १कुल- + ✓वृद् । e) = पट- ।

कुन्माप- विष्ट°, पुलिम- उयं-
 स्थि°, इकु(ल)रया- अयु°,
 घनमृत्नीव°, १मयु°xx कुचल-
 गोधूम°, √कुश°, इकुश- १अर्°,
 एयु°, १अंय°xx सुदुचोरपलप-
 वामस्- उय ३९०°, कुततरग-
 ३अमी°, १रिरीव°, कुशविष्मल-
 एरिगति°, *कुश द्विरग्य- घन°,
 कुशाविधान- १अ°, कुसोदक-
 गोमृ°, ५यग्य°, ११म°
 २कुशल- १५°, अमवार°xx,
 कुशलो- १अ°, कौरल-
 १हस्त°, कुशाभव- > कौ-
 १, १)शाम्बी- कोशल°, २वन°,
 कुशिर- विरित°, कौशिक°-
 क° अय ३७७ ५, ३७८ [क-
 आगिरेव°, अयमर्षण°xx], कौ-
 शिकोक्त- > *कौशिकोक्त उद-
 वधानिगम- अ. अय ३२ १, २६,
 कुशीलय- बाल°, √कुष्-
 कभुद्°, २अद्°, निस्°, वि°,
 *कुषित-, *कुषितवत्-, *कुम्ब,
 कौष- लीण° *कौषण, *कौषणी-
 १जी°, *कुषण्ट°- पण°
 कुषीतक- > १कौषीतक- मरु°,
 कौषीतवापक°, कौषीतकि-
 मरु°, २कुष्ठ(वमा)°- ३७°,
 उवाल°xx, कुष्ठिन्- अमेध्य°,

दुश्चर्मर°, द्वर्मन°, नग°, *कुष्ठि-
 श्वर- १अ°, ३कुष्ठ-> पु(ष्ट-र>)
 टिका- ४अ°, *५कुष्ठ> छा°-
 दिग्°, शी°, कुसीद- ४°प°,
 पाशुपाल्य°, कुसीदिन्- अयन्त°,
 क्री°°, जुगणशिन°°, *पुसुक-
 र्म्°, पुसुम- अरोर°, ३रच°,
 कौण°, ४अ°, पुसुम्भ- अतरी°,
 निपत्री°, √कुह्> *कुह- विपु
 > पू°, पुडक- उदत°, *कुहरण°-
 ५र°, *कुहृक- माया°,
 *कुहृक नी(त)> ला°- गणरा°
 कुह- रुद्रमति°, *√कृ षा°,
 कृत्- , कृषि°, √कृन् रुतु°,
 *कृन्- १अ°, कृष्ट(वमा)- १अ°,
 कृष्टि°, १वाल°, कुला°xx,
 *कृत् मान-हर- अमिशस्त°,
 *कृत्-तारमलि°- सुमनीवार°,
 कृत्साक्षिन्- उरार°, रुने°
 √कृइ(दहि)*कृष्य नि°, कृदी°-
 कृष्- पाग ४, २, ८०° [प-
 २अ°, वर्रव°xx] *कृष तोय-
 १अ°, *कृषिन्- पा ४, २, ८०
 कृषक L, जा)° (> िरि- पा)
 पाग ४ २, ८०°, *कृषार°- १अ°
 कृष(र)री- २अर°, कृर्च-
 उपातह°, १एण°xx, *कृर्वा
 (रैण)अन्- ४ग°, इकृर्भ-

१गोषा°, तिगिर°, लयुन°,
 वासक°, ४अ°, कर्मष्टपण° १अ°
 कुर्मि- √कृ (दिवायाम्) परि इ
 इकुल- १अ°, अतु°, ३१°,
 २३°xx, *√कृलि, कृल-
 अय°, कृष्माण्ट- पिप्लना°,
 कृष्माण्टी-मंली°, कृष्माण्टरा°
 √कृ पाया उना उग वरळ°,
 म्रियं वेाधी २५, ११ २११°°°
 कृषि राधी २५, ११, २१°, कौषु°
 कौषी २, ३: ९, भाधी ११, ९,
 १०, १४, वैधी १३ २: ५६,
 द्विधी २४, १, १०, १३, कावे कौषी
 २८, १, २०°°, कुर्वांत वाष्ट २२,
 १°, अयमं°, चिरीपंयन्ति वा १४,
 ३१°° [अयलली°, अनी°, अर्डी°xx],
 २का- १अट् २°, १एव°, लिट°xx,
 *कृ विसलय- पाग २, १, ५६,
 वरपाद्- १एक°, *कृ-सुप्त- १अर्डी°,
 *कृर्भ- र° द्वि प्राधी ११, १, ५,
 लाधी ४, १, ५ [२- १अ°, अति-
 भासु°, अन्नत°, अनी°, अ-यत°xx],
 *करी- भद्रम्°, दरार्य°, अकरण-
 ण थ [अ- १म°, १अड°,
 अजागि°xx] कर्णी- अलिमर्°,
 अजादणम्°, आत्मन्°, अयु°xx, कण
 वधी- १अ°, वनलि- कर्तु°, २अवर्°,
 *करि- शकुल°, २अम°, *करिण्यु-

a) पृ ८९० नेष्टम् । b) पृ ८९० सत्य 'अघनंका' > यनि इ । c) पृ ५५ अघनंकाकौषि° >
 *कौशि° इ । d) = उल्लू । e) = तर्जमेद । f) पृ ८९२ 'वि' > यनि इ । g) = श्रेयसि विशेषः,
 रोग-विशेषः । h) = रोण- (इ एथा ५, १, ३) । i) वेप इ इ । j) अर्थ. व्यु च । h) = पुष्टक ।
 l) वस । m) नाप (नरकश्च [कण्टकि अल]) कष । n) पृ ८९५ 'e' > g इ । o) पृ ८९५ h नेष्टम् ।
 p) पाका पाठ । q) पृ ८९५ कृषका इति नेष्टम् । r) पृ ८९६ 'वर' > यनि इ । s) पृ ८९७ अत्र इ
 देवम् । t) पृ ८९७ यान इ । u) पाठ इ कृण्वे इति शोष (इ स्या शी ७, १०५, १) । v) पृ ८९७
 म नष्टम् । w) पाठ इ कृद्- (वैक्य-)> कृ (द्वि) इति शोष । पृ ८९७ इ नेष्टम् । x) पागे वेप इ,
 ११२४ म इ । y) पाठ इ कृत् इति शोष (इ पृ १०९० h) । z) पृ ९०० 'कौषी २५९, १५' नेष्टम् ।
 a') पृ ९०० यनि स्थल शोष । b') विप, नाप, (दररदोप मन्) । कर्ति अच्, ट प्रभु, करणे अच् प्रभु ।

ऋतैः, कर्मण्य इत्या- १३०, इति०,
 मनुं म जीव०, वशी०, २कर्म- १३०,
 प्रवणोरण०xx, कर्म (क)- अस्मान्,०,
 चित्तवत्, नियन्त्, मनुष्य०, कर्म
 वेदना- २समान०, *कर्म (कृ-ए)
 वा (क-अ) ऋत्- १३०, कर्मोत्,
 कर्मन्- पावाण छ, २, ५१० [०न्-
 १३०, अति०, आत्तोरिन्द्रि०xx], वर्म
 (क)- १३०, १३०त्xx, कर्मकरण-
 १३०, कर्मकर्म- २तदन्त०, कर्म
 कर्म (क-अ)- प्राप्त०, *कर्म काण्व-
 पावा छ, २, ५१, *कर्म काल- १३०,
 कर्मगुण- आत्तम्, १३०, कर्म मन्-
 *२कर्म-व-मन्- १३०, *कर्म वृष्ट-
 वृषित०, कर्मधारय- १३०, नन्०,
 कर्मप्रवचनीय- धनर्थक०, २गति०,
 कर्मसात्र- म-त्रोक्त०, कर्मसुत-
 १३०, कर्मविशेष- क्षेत्र०, वमरोप-
 *कर्म-आ-त-त, कर्मसुत- १३०,
 कर्मसयोग- १३०, कर्मा०, *कर्म-
 संविधि- १३०, *कर्म (मं-आ)
 ट्या- २या मौक्ष ६ ८, ४००,
 कर्मा-अभिप्राय०, २र्मिन्-१३०,
 ३३३- अष्टक०, अष्टक०xx, *कर्म-
 शोच०, वारक- १३०, अनृत०,
 अन्वद्xx, *२कर्मिका- अष्टोर-
 वर्मन् जलधयxx, कारकाह-१३०,
 कारग- १३०, अर्थ०, अविशोपxx,
 *१कर्म ३कृत्, अर्थ०, अष्टक०-
 गावती०, अनुष्टुप्xx, कारचित्-
 पशुशाल०, कारि- सेमान्त०,

३कारिका- कारित, ता- अन्व०,
 १३३मीर्त०xx, कारिन्- १३०,
 अरार्थ०xx, कारिणी- १३३, दोह-
 द्वेप०, वर्णनकर०, कार- कर्मक०,
 जल्, तस्कर०, कर्म०, कर्म, यी-
 १३०, अति०, अमा०xx, कुर्वन्-
 कर्मा- कृत्वन्- १३०, अल्प्,०,
 कृत्वन्- २ि०, १कृत्-
 कृत् [०त्- १३०]. *कृत्
 तदित्-, *कृत्-सर्वधातु-
 १३०, कृत्स्वराधा०, कृत्स्वोप-
 अन्वयोना०, *२कृत्- अक्षर०,
 अ यमन्, अप्०xx, १कृत्, ता-
 -ताव् [०त्, ता- १३०, १३३म०,
 अमत्०xx] *कृत्-वार- १३०,
 कृत्स्न- शैल्य०, कृत्स्न- वर्ग०,
 कृत्स्न- १, *कृत् मित प्रतिपन्न-
 १३०, *कृत् लयण- राजमाप०,
 कृत्स्नअनुवर्तन्- वान्, कृत्स्न
 > *कृत्स्नता(त अ)द्- वात्
 माश्री २, ५, ५, २०, कृत्स्नलि-
 ०पर ००, कृत्स्नकार-
 कृत्स्न- १३३क०, गन्व०, तिल०,
 १३३क०, कृत्स्न- १३०, १कृत्-
 १३०, १३३हीनxx, *कृत् प्रयोग-
 पथि०, २कृत्- अति०, आ०,
 २३३, कृत्- १कृत्, *१कृत्
 वीथ २, ५४, २, ११, २ [१थ
 पाश्री०, शतम्] कृत्- अर्था०,
 अर्थ०, अर्थुर्द०xx, १कृत्-
 पाप०, साधु०, कृत् कृत्पाप-

अति०, कृत्स्न- १३०, १३३क०,
 ३३३, *कृत्स्न- अन्व०, राजन्,
 सह०, कृत्स्न () १३३क०, तावत्xx,
 कृत्स्न क्रियमाण, ता- १३०, कृत्स्न-
 १३०, अकृत्, अकृत्xx, *विधा-
 प्रवचन(अ-अ)थे- १३०, *विधा-
 समूह- २ विध २, चक्रि- १३३,
 चिकीर्षत्-, चिकीर्षा- १३३कृत्,
 ऐ-श्री०xx, चिकीर्षित- ३३३
 √कृ पाथा स्ता उभ द्विधायाम्
 [अभि०] *कृत्- तुषि०, *√कृ
 (पुरणे), ३कृत्-, ३कृत्- ३३३
 कृत्स्नात्- १३३क०, कृत्स्न- १३३,
 अत०, १३३क०xx, *कृत्स्न शोचन-
 शोचि०, √कृत् (छेदने)
 अ०, अ०, अ०, वा०, २३३,
 नि०, नि०, परि०, वि, सम्,०,
 समुद्, ३कृत्(व्या)- अर्थ०,
 १३३, *कृत्स्न-, *कृत्स्न, *कृत्स्न,
 *कृत्-, *३कृत्- मर०, कृत्-,
 ३कृत्-, *३कृत्, *कृत्मान-,
 *कृत्- ३३३, *कृत्-
 १३३, *कृत्स्न- नाभि०, √कृत्
 (छेदने) उ०, *कृत्स्न- आदित्य०,
 *३कृत्- १३३, *√कृत्
 (*वृत्तरेणे), ४कृत्- अ०
 कृत्स्ना- प्रति, रोहित०, १३३३,
 १३३, कृत्स्न- कृत्स्न, कृत्स्न,
 कृत्स्ना- कृत्स्ना कृत् ३, १०, ३३
 [०त्स्न, कृत्स्ना- १३३] वास्तव्य-
 १३३, १३३, चोदनाथ०, १३३,

a) पू वृथद् इति पाठ । b) तु पाठा । c) पू १०४ यति सरपाशनेन इ । d) ह्य ।
 e) वैवृ वासं भाष्यम् वर्म, आत्तयात् इति । f) पू ८६३, १०० यान् सट्पाथकन इ । g) पू १०९ यनि
 संत्वाशनेन इ । h) पू १०९ -कृत् > यनि इ । i) पू १०९ 'रा(र मा)' > यनि इ । j) वर्तार विष्
 म । k) पू ११० मधी २, ५, ५ २० नष्टम् (हृ पू ११० कृत्स्न- इति) । l) पू १११ 'रा' > यनि इ ।
 m) पू ११२ कृत् > वात् > यनि इ । n) पू ११३ 'आका' > यनि इ । o) वैवृ इ इ । p) पू ११०
 यनि सत्पाशनेन इ । q) कर्तारि कृत् । r) = अक्षिणमौक- । s) पाठ ? 'कृत्स्ना' इति शोच (तु
 भाष्यम् (गोथ ३, १०, १३१) ।

शरीर°; हृत्सन्संयोग-; *हृत्सन्
 विद- १७०; हृद्यु- १७०; हृत्सन्-
 प्रयु. ✓हृत् (हृत्सेने) परि. द.
 ✓हृत् > हृत्सन्- दीन°; *कर्म-
 १७०- १७०. ईर्ष्या°; हृत्सि-
 १७०२२२°, मणु°, *हृत्सि-परिवृत्त-
 १७०; हृत्सुक- > ३५०°
 ✓हृत्सु > १७०°-अति°, १७०°;
 १७०नाश°-; *२७०°- १७०°°;
 १७०दान°-; *२७०दान°- जल्प°
 *२७०दाशय- (> मन्नादिशेष-
 पा) पाग ४, २८०; ✓हृत्सु अति°,
 ध्वनि°, इतु°, अनुवि°, श्व°,
 श्वभि°, श्रानि°, अभिपरि°, श्व°,
 श्व°, २७०°, २७०°, २७०°, २७०°द°,
 नि°, निम्°, परि°, प्र°, प्रति°,
 प्रतिपरि°, प्रत्यय°, प्रत्युप°, प्रोद्°,
 नि°, विपरि°, विप्र°, श्वय°, श्वुद्°,
 संनि°, संनिम्°, सम्°, समुद्°,
 कर्म(वशा.)°-अथोत्सर्ग°, २२२२°°;
 १७०°°, तास°××, मर्मक- पाठदु
 ४, १४ [°- चैत्], कर्मण-
 श्वय°, मन्°, मल°, शर्करा°,
 हृत्सु°, मर्मयत्, *मर्मयत्; *कर्मित-
 श्वय°, कर्मित्- शर्करा°, मर्म-
 १७०मित्; कर्मवय- मुश्व°, स्त्री°;
 *कर्मवर्ष- (वा- १७०२२२°; *कर्म्य-
 हृत्सि- १७०२२२°, श्वययत्न°, हृत्सि-
 वल- १७०, हृत्सु, वा- १७०°°°°°
 १७०ल°××; *हृत्सु, *हृत्सु-
 हृत्सुमा(णु)°-; *कर्म्य-
 १७०२२२°, १७०°, अ त°, श्व°××
 *हृत्सुल्लृत्- श्रुति°; २७०२२२°

विद्वन्- विद्वत्तः; हृत्सुल्ल- वाहृद्°.
 त्रि°××; *हृत्सुल्लोह- श्लेषन°°;
 हृत्सुल्लकृत्- रज्यता°, स्त्री°°;
 हृत्सुल्ल- > १७०२२२°- २७०२२२°-;
 १७०२२२जिन- १७०२२२°, २७०२२२°××;
 हृत्सुल्ल- पायत्, श्रुत्येदत्, ३२२-
 स्तिर°°; *हृत्सुल्ल-व्याय-व्यायसा
 (स-अ)व्य-मांस-; *हृत्सुल्ल-सेवा-
 व्यायसा(ग-अ)व्य-अनुत्थी- २७०°
 ✓कृ(स्तुतौ) > १कोर्ति- आनुत्°,
 दिवा°××; कीर्त्तन, ना- तद्°,
 प्रशोवा°; कीर्त्तवत्-; कीर्त्तित,
 ता- १७०; *कीर्त्तय; *कीर्त्तय-
 दिवा°; ✓कृ(विक्षेपे)अति°,
 अनुत्ति°, अनुत्त°, अनुत्ति°, अनुत्त°,
 अनुत्त°, अनुत्त°, अनुत्त°, २७०°
 उपा°, उपाप्र°, उपावि°, उपात्°, नि°,
 परि°, प्र°, प्रति°, प्रतिसु°, वि°,
 विप्र°, विप्रु°, व्यति°, सम्°, सेप्र°;
 ३२२- पाग ५, ४, २८० [°-
 १७०, २७०°], शीतोद्गत- मही°;
 *३२२- ५कार-; *३२२-
 १७०- विविष्°; *३२२-
 *३२२- १, किरत्-; *किरन्ती-
 कीर्त्त, णी-; *कीर्त्त- *कीर्त्तमात्-
 ✓कर्म्य अतु°, अनुत्ति°, अति°,
 अतिस्मृ°, अव°, श्व°, २७०°
 उपा°, नि°, परि°, प्र°, प्रति°,
 नि°, विप्र°, सम्°, समुप°,
 सेप्र°; कर्म्य-अति°, अतिशय°××;
 कर्म्यमात्°°; कर्म्यमात्- ४२°
 कर्म्यादि- १७०; *कर्म्यक-कर्म्य-
 पुनद्°, श्वयत्, नार्त्त°, श्वयत्न°°

पल्लव- कर्म°, हृत्सुल्लो°;
 अनुत्ति°, २७०२२२°; कर्म्यमात्-
 कर्म्यमात्-; *कर्म्यमात्, कर्म्य-
 विद्या; कर्म्यमात्- द्वादशामुत्त°;
 *कर्म्यमात्-; *कर्म्यमात्, कर्म्य-
 १७०२२२मात्°; कर्म्य, सा- १७०°
 एराद्°××; कर्म्यमात्- १७०२२२°°°
 कर्म्य- > कर्म्य- २७०°; कर्म्य-
 > ७०- पा ६, १, १७०°; कर्म्य-
 ✓किम् (परि.) द; *कर्म्य-
 २७०२२२; कर्म्य- पुनद्°°°;
 १७०२२२- १७०, निम्°, पुनद्°°°
 २७०२२२- १७०२२२, श्व°××;
 कर्म्य(क)- मात्°; कर्म्यमात्-
 ४२°; *कर्म्यमात्-किम्- शीर्ष°;
 *कर्म्यमात्-इत्य-तत्-व्युत् रोम-
 भाया- स्तिम्य°; कर्म्यमात्-
 पुनद्°मात्°°; कर्म्यमात्- श्रुति°;
 *कर्म्यमात्- निगत°; कर्म्यमात्-
 उपात्ता°, उपा°, मुषित°, कर्म्यमात्°;
 कर्म्यमात्-रोममात्- कर्म्यमात्°; *कर्म्य-
 इत्य-श्रीमन्- शर्व°; *कर्म्य संघ-
 मत्- कर्म्यमात्°°; कर्म्यमात्-
 १७०°°; कर्म्यमात्- उपात्ता°°
 २७०२२२- उपात्ता°; *कर्म्यमात्-
 रोम°°; कर्म्यमात्- वि°; ✓कर्म्य श्व°;
 *कर्म्य- शीर्ष°; *कर्म्यमात्- १७०२२२°;
 कर्म्य- > कर्म्य- (> शी-
 ल्ल- पावा.) पाग ४, २, ५°
 *कर्म्य- > को-विद्- उपात्ता°
 ज्ञान°, नक्षत्रन न°, प्रहृति°°
 शस्त्र°, *कोकिल- उपात्ता°
 १७०२२२- कर्म्यमात्°, १७०२२२°°

a) पृ १२० यनि. संख्यासंकेतः द. 1 b) = पाठ-भेद-। c) अर्धः व्यु प ३। d) मव., नाव.
 (परिमाण-विशेष-). e) पृ १२५ यनि. संख्यासंकेतः द. 1 f) पृ १२७ यनि. संख्यासंकेतः द. 1 g) भावसर्षे
 हृत्. 1 h) तु पागम. 1 i) पृ १२८ यनि. संख्यासंकेतः द. 1 j) पृ १२९ अ द. 1 k) पृ १२९ "छ">
 यनि द. 1 l) अत्र यनि. शेषः। m) नाव. (भूषण-भेद-). n) विप. > नाव.। o) अर्धः पृ १३०-५८ द. 1
 p) तु. पाका. 1 q) वेप ३ द. 1 r) उव. उव. काशनाम्। 1) = कर्मल-

३२२^{००}, १२२२^{००}, विपुविष्कर^{००}
 कोच- √कुच् (परि) इ
 १कोटि टी- अर्थ^०, १रोमन्^०, सहस्र-
 क्त^०, २कोटि- २४^०, धनुन्^०
 कोष- ईकान^०, चरु^०, त्रि^०××
 कोष(क)- १अष्ट^०, *कोदार^०-
 २वरक^०, कोद्रव-१माप^०, २वरक^{००},
 कोमल- नीलो श^०, कृष्णक^०,
 कोर- √कुल् (परि) इ,
 कोविदार- २अरह^{००}, निम्ब^{००},
 विभीक्ष्ण^{००}
 कोश- अयज्ञ^०, अज्ञान^०×× कौशेय-
 २अमन्^{००}, कोशावित- अरत्^०,
 *कोश भूट-२शक- २शरत्^०
 कोषण- √कुप् (परि) इ
 कोष्ठ- १२७^०, सुद^०, सुह^०××
 कौजय- कुजय- (परि) इ
 कौटजिक- कुटज- (परि) इ
 कौटिक- कुट- (परि) इ
 √कन्यू > *कोपन- १अ^०, *कोपम्
 २वेत्^०, कयाकु- विरोधन^०,
 क्युन^{००}, *क^०- १अ^०, १वृत्^०,
 २अ^०, *शका(कअ)त्- १अ^०
 ककर- विपुविष्कर^{००}, कक्यत्-
 √कृप् (परि) इ, ककु- १अ^०,
 ककुम्भ^०, अ२रु^०××, ककुवच-
 शौ^०, ककुवक- १अ^०, *ककु वर-
 अगेप^०, *ककु-शेव- ककुसेवक-
 कवर्थ- १अ^०, √ककु न्द अणि^०,
 कभ्या, का, उपा, ल^०, सम्^०,
 १कद- १अर^०, १शु^०, १दर-
 *क दन- *कनित्त-
 √कम् अति^०, अया^०, अधि^०, अतु^०,
 कनुनि^०, कनुनि^०, कनुपरि^०,

अनुप^०, अनुवि^०, अनुसम्^०, अनुद^०,
 अण^०, अमि^०, अभिनिस्^०, अभिप्र^०,
 अभिवि^०, अभ्यति^०, अभ्यव^०,
 अयुद्^०, अङ^०, आ, उदा^०, उपा^०,
 उपनि^०, उपनिस्^०, उपसम्^०, नि^०,
 नि^०, परा^०, परि^०, प्र^०, प्रति^०,
 प्रतिनिस्^०, प्रतिपरि^०, प्रतिवि^०,
 प्रत्यति^०, प्रकण^०, प्रत्या^०, प्रत्युप^०,
 वि^०, विपरि^०, विप्र^०, वति^०, व्यप^०,
 व्युद्^०, सम्^०, समति^०, समनु^०,
 समव^०, समुद्^०, समुप^०, *कस्यत्-
 क्रम-१अ^०, अक्षर^०, १अग्नाभ्य^०××,
 *कमा(म-अ)क्षर- लुपा^०, ममं-
 गत- निखेरोप न ध^०, ममण-
 १अनुक्रम^०, अदमन्^०, क्रमणी-
 *क्रमम्, क्रममाण- क्रमयत्-
 *क्रमय, *क्रमिन्- *क्रम्य,
 *क्रम्य- सुह^०, *क्रम्यमाण-
 १मान्त^०- १अ^०, काकशब्द^०, कुर^०,
 *क्रान्ति- *क्राम- क्राण-
 क्रामत्- *क्रामय, *क्रामय,
 *क्रामुक- *कृकमण- रथान^{००},
 कृक(मि>)मा^०, *विक्रमियत्,
 कृक्य-> कृक्यात्- १अ^०,
 १गार्हपत्य^०, विपुविष्कर^{००}, कृक्यात्-
 १अ^०, कृक्यात्^{००}, *कृक्यात् सेवन-
 मङ^०, *कृक्या(अ-आ)कृति- १अ^०
 क्रा- २दधि^०
 *नायम्- ३दधि^०, मिमि-
 उदर^०, √क्रो अति^०, अधि^०,
 अतु^०, अण^०, नि^०, परि^०, वि^०,
 कथ- १अ^०, दीक्षा^०, राजन्^०,
 शिष्य^०, सप^०, सोम^०, दययिषय-
 १अ^०, कथयिषयिन्- कथु

दि^०, कथय- याथा^०, सोम^०,
 *कथयो- राजन्^०, २कथिक-
 *कथिन्- सोम^०, *की- ३य^०,
 शत^०, सय^०, *कीकत्- १अ^०,
 श्रीव- १अ^०, कानीना^०××, *कीय,
 क्रीयमाण- १अ^०, केतु- क्रेव-
 √कीद् कतु^०, आ, नि^०, नि^०,
 परि^०, प्र^०, सम्^०, *कीदन्-
 कुमारी^०, *कीदयत्- कीडा-
 २कतुक^०, १जल^०, क्रीदिन्-
 क्रीडित- कनीकत्^{००}, √कुञ्च् >
 कुञ्च्-> २कोञ्च- कलविद्^{००},
 कुञ्च^०, विपुविष्कर^{००}, २क्रीञ्च-
 आदा^०, २क्रीत्^०, २काना^०,
 *कुहा^०, *√कुद् कोद- १वृत्^०
 √कुष् अणि^०, सुह- १अ^०,
 मत्^०, शोष- १अ^०, अति^०,
 उष्णामुस्तान^{००}, १कम्^०××,
 *शोष हर्- विना^०, शोषन-
 १अ^०, √कुश अति^०, अतु^०, अणि^०,
 अभा^०, आ, उपा^०, उपा^०, परि^०,
 प्र^०, वि^०, सम्^०, समुद्^०, *कुरय,
 कुष्ट- कृतीयप्रथम^{००}, द्वितीय^{००},
 १कोश(वप्रा)- २वृत्^०, १अ^०,
 यथा^०, वामदेष्^०, *कोशक-
 देवमादात्^०, कोशत्- कोशान-
 *कोशयिद्- *कोशय, कोशु-
 (>०)पान^०), कूर- १अ^०,
 कुरयती^०, *कूर-कार- कलविद्^{००},
 *कूर सुद- अति^०, कोडा^०-१अ^०
 २कोश- वि^०, दि^०, *१कोशेय^०-
 पा ४ १, १०८, ५ ३, ११७,
 २कोशय- पा ५ ३, ११७, श्रीशेवी-
 पा ४, १, १०८, *कुरन्- १अ^०

a) = पा-अ-अ- १ b) कथय वादीनामत्माडावना- प्रथ १ वेप इ इ । c) कथ । d) = विहरेव-
 इय- । e) इ १२०- कथि वात्पाथेत् इ । f) कथ प्र । g) वेप इ इ । h) नाग । १) विप,
 नाय (नाम मेद) । j) इ १२४ *कृया > यान इ । k) नाग (विदारीकन्द) । l) = अणुपजीविषय-
 विषेव- । m) वेप इ परि इ ।
 वेप प्र १६

√क्लिद् अ०, वि०, †क्लिच्-
 †क्लिन्द्-र, क्लिन्- १जत्, सञ्जत्,
 क्लिन्वत्सह- , †क्लिच्- १अ०
 †क्लिप् (=√क्लिद्), क्लिच्-
 वि०, √क्लिष् अ०, परि०,
 वि०, सप्र०, क्लिन्वत्- , †क्लिश्च,
 †क्लिश्चमान- , †क्लिष्- १अ०,
 कुंश- अनेक०, २कथ०, २न्यनवध०
 क्लीत्तम्- १एप०, √फलीय् >
 क्लीय- १अ-४०, १जट्*xx
 √क्षण् नि०, परि०, कण- , †क्षण- ,
 कण- , √क्षप्, †क्षायत्- प्र०
 √क्षया (=√क्ष्या) अतु०, अग्निवि०,
 अ०, क्ष- रुवि०, √क्षण्
 > क्षण- आगोद् २०, तद्, ४अ०,
 †क्षण्यत्- १अ०, क्षत- १अ०,
 मीलोकाम्*xx, †क्षत-
 र्थमां सन्- पिशुन०, †क्षति-
 प्रकथय०, †क्षन्- १अ०, प्रति०,
 मक्षन्, क्षत्रपति- ल्युष्टि०, क्षत्रपति-
 -नि० काथो ५ १३, १ क्षत्रविद्या-
 पावा ४, २, ६०; †क्षत्र-सच-
 चपात्समुत्, क्षत्रिय, वा- गी२०,
 अक्षन्, २मक्षन्*xx, क्षत्रियप्रह्वानर्थय-
 -२५०, †क्षत्रिय-मीर- पावा २, १, ५३,
 †क्षत्रिय राजन्- -जानम् अथ ४,
 २२०, √क्षद् > क्षद्-
 क्षद्-रुत्, आतोम्, २सुत्
 †क्षद् (रक्षणे) > †क्षत्र-
 रुवि०, †क्षद् > क्षप- दिव-
 सेकविद्यति०, माह०, क्षपणी-
 रामन्, √क्षम् > क्षम- पा

३, १, १३४ [०म- अयदानक्रिया०,
 दुःखिष्टमन०, वातना०], १क्षमा-
 सत्, †क्षाम्- पावा०, क्षामद्-
 चर०, †क्षाम काप- ४अ०,
 क्षामी- (> ०मी-मुण-)
 √क्षद् अति०, अतु०, अग्नि०, अ०,
 आ०, उप०, परि०, प्र०, वि०, द्युद्,
 १क्षर, रा०- वात्, क्षरत्- , ०ती- ,
 क्षार- १अ०, उदरिक्त्*xx, क्षार-
 लय- १अ०, †क्षारयत्- , √क्षार
 परि०, प्र०, वि०, रम्, संप्र०,
 क्षालन- लयान०, †क्षालनी- ,
 †क्षालयत्- , †क्षालयमान- , †क्षाल-
 विन्- , क्षालित- , †क्षाल्य,
 †क्षारयमान- , क्षाण- √क्षे(परि.)
 ६, ४क्षान्त- (> २क्षान्तायन,
 †क्षान्तायन- , क्षाप्य, क्षायत्- ,
 क्षायम् √क्षे (परि) ६
 √क्षि अ०, अ०, अ०, उ०,
 उपा०, परि०, प्र०, सम्, राम०,
 १क्षय- १अ०, क्षय*xx, †क्षयण-
 १अ०, २क्षयण, २क्षान्त्वा०, सफन०,
 क्षय्य- १अ०, †क्षिणत्- , ०ती- ,
 क्षित- १अ०, चीण, पा- १अ०,
 श्ति०, क्षीयमाण- १अ०, √क्षि
 (निगातगःयो) अवि०, आ०, परि०,
 सम्, २क्षय- १उ०, २प०, र०,
 १अ०, १क्षयण- , †क्षयस-
 १उ०, †क्षित्- १अ-युत्, इन्त-
 रिष्*xx, क्षेत्र- १अ०, २क्षेत्र०,
 १कु०, २क्षेत्र*xx, †क्षेत्र कर्षक-
 पशुपाल०, क्षेत्रज- १क्षीरत्, क्षेत्रज-
 १अ०, क्षेत्र०, क्षेत्रपति- > क्षीय

पत्य- सारस्वत०; †क्षेत्र सद्-
 पशुपत्र०, क्षेत्रिन्- कृषियोगात्,
 ३पाल०, बीजिन्, क्षेत्र- १अ०,
 १उद्व०, योग०, सुमिष्ठ०, क्षेत्र
 वृद्धिन्- > क्षेत्रवृद्धि- पावा ४,
 २, १३८^m, क्षेत्रम्- जन्म०,
 †क्षेत्रन्- सु०, √क्षिप् अधि०,
 अ०, अग्नि०, अग्निवि०, अ०, आ०,
 २उद्, उप०, उगनि०, नि०, निर्, २
 परि०, प्र०, प्रति०, वि०, विनि, व्यति०,
 व्या०, रम्, समव०, समुद्, २
 †क्षिपन्- , ०ती, क्षिप्त- , †क्षिप्य,
 †क्षिप्यमाण-; क्षिप- प्रत्यक्ष०,
 १एदु०, १रयुत्, क्षेत्र- अग्निनि-
 हित०, २क्षार०, प्राक्लिष्ट०,
 क्षेत्रयुक्त- १अ०, १क्षेप- अतिप्रद०,
 अयत्, इपु०, उम*xx, †क्षेपक- ,
 क्षेपण- भू०, †क्षेपिन्- , ०भी-
 क्षीर- १अ०, १अत्र०, १क्षमा*xx,
 †क्षीर विकार- काणित०, †क्षीरा
 (र अ) अलि- सतन्, क्षीरिद्-
 १अ०, वण्डविन्, क्षीरोद क्लृप्ति-
 पुट-यर्भ-विहीर्ष-मुकासंवात-
 पाण्डुर-रत्, √क्षीष >
 †क्षीय- १अ०
 √क्षु अ०, परि०, वि०, क्षय- , क्षयत्-
 इन्, ०, †क्षाय- , †क्षुत- २क्षे०
 √क्षुद् परि०, सम्, सम०, सप्र०,
 †क्षुण्ण- १अ०, †क्षुय, १क्षुद्-
 मत्, १रयुत्, क्षुद्रकृत्- १अ०,
 २क्षुद्रा (द >) वा०, क्षुद्रपक्ष-
 पृष्टवप०, २क्षुद्र- > क्षीद्र- तिष्ठ०,
 क्षुद्रक- > क मालव०-

a) देव इ द । b) यनि स्थल-शोध । c) इ १४८-वचम् > यनि द । d) तु पागम ।
 e) ०५० दति ष । f) इ १४८ ग द । g) इ २३०३ द द । h) इ १४४ गलि सत्पासोते द ।
 i) इ १५० अत्र सत्पासिष्ठा । j) इ १०६२ द द । k) इ १५० यनि लयासोकेत द । l) इ १५१ यनि
 सत्पासोकेत द । m) इ १५३० > इ द । n) इ १५० यनि लयासोकेत द । o) इ १५१ यनि
 > वच. । यनि. शोध । p) इ १५१ 'व (२) > यनि द । q) इ १५० अत्र द देवम् ।

√क्षुप् > क्षुप्- १ वरा^०, *क्षुप्-
दृष्णा(शा-आ)र्षि- राजन्^०,
क्षुषा- > क्षुषित- १भीत^०,
*क्षुष- क्षोषुक-१अ^०

√क्षुम् वि, सम्, *क्षुभित-क्षोभ-
फल^०, रघु^०, १वल^०, *क्षोभ्य-
१अ^०, क्षुमा->क्षौम-अरयन्^०,
गन्ध^०, १शाण^०, आशी^०, क्षुर-
१खोड^० क्षुररमन्- १दर्भ^०, क्षुर
क्षुष- सैधुन^०, क्षुरवधि^०, क्षुल्ल-
>क्षुल्ल क >क वैश्वदेवव्य-
खोत्र- २^० बीशो २५, २१ १६

क्षेपक-, क्षेपित- √क्षिप(परि) द्र
√क्षै ३प्र^० श्रव^०, प्र^०, वि^०,
सम्, गप्र^०, *क्षान-, *क्षाय क्षाम-
१अ^०, सौ^०, *क्षायन्-, *क्षायम्
*क्षोष- (> क्षोषीय-)

*√क्षण (=√क्षि) क्षण- ५^०,
√क्षुष्ण आ^०, प्र^०, सम्, *क्षुष्ण-
उभयतस्, *क्षुष्ण- अन्यतरतम्,
*क्षुष्ण- अन्यतरतस्, उभयतस्,
क्षमा- यु^०, *क्षमा पति- १इव^०

√क्षमाप् वि, *क्षमापय(त्) > म्दी-
√क्षिवद् > *क्षिवेदिद्- गेहे^०,
गेठे^०, √क्षिवद् २उद्^०

ख

ख शक्य^०, १अ^०, २ख- आच^०, कर्ण^०,
√खञ् > *खञ्जि- मद्गण^०,
*खजापो(खोजा)-, √खञ्ज

> १खञ- १अ^०, १खण^०, कुञ्ज^०,
खट^०, *खञ्जक- पाठदु ३, ३१
खञ्जरीट- कठविद्^०, १वाक^०,
विपुषिपर^०, खट्वा- कति^०,
विशीर्ण^०, *खाटिबक- वा ५, १
५०, खट्वाञ्ज- खशान^०, *खट्वा
(ट्वा आ) सन पादुक- उत्तान^०

खञ्ज- > खानायन- कलापर^०
खञ्ज- १गोषा^०, छाप^०xx,
खञ्जपात्र-लेखन^०, √खञ्ज् आ^०,
खण्ड(वत्रा) - १अ^०, १अप्र^०,
खट^०xx, *खण्डा(खट्टा)ष्टि-
तिमिर^०, खण्डन- २पत्न^०,
*खण्डवित्-, २खण्डु->

२खण्डव- २रा^०, खदिर-
१अ^०, १अदस्य^०xx, खदिर-
पाठाच^०, १वै०३^०, √खन्
अधि^०, इनु^०, अमि^०, अवं ख^०,
२उद्^०, नि^०, परि^० वि^०, ससुद्^०,
*खन्- *खन्- मृद्^०, पत्न-
पत्न- श्लोपवि^०, खेदन्^०, रौद्र^०,
*खनिर्- , *खनिकवक^०-

१ख- उच्छिष्ट^०, उत्तरवेदि^०xx
*खा- विन^०, खात,खा- १अ^०,
अनि^०xx, खातक-पर^०, *खातन्य-,
खाता १अ^०, *खान^०, *खानम्,
*खाद्- *खु^०, खेप,पा-, २खन^०-
२खन- १खर^०, २खर^०,
३खर^०- अद्रिज^०, १अथ^०, खय
तर^०xx, *खखर^०- नि^०, खर्च^०-

१अ^०, नि^०, *खर्वादि^०- नि^०,
१खल- मोघुल^०, धा-य^०, ५खु^०,
१ख^०, *खल यञ- अशोचन्^०,
सीतायञ^०, खलति- विञ्ज^०,
५ख^०, दुख^०, *खलतिक- पाठदु
६, २१

*खलिन- पाठदु ६, ५, खलु
अलम्, २खाण्डिक^०- क कप्र
३, १, १, √खाद्, खाद्- वि^०,
खादन्- १अ^०, *खादिद्- ५^०,
*खाप, खाप- १अ^०, खादि-
हिरय^०, २खादिव^०-

खार-> खारी- अथर्व^०, अर्थ^०
√खिद् आ^०, २उद्^०, नि^०, प्र^०,
सम्, *खिद्व-, *खिच, *खिचत्-,
खन- , खिद्र- १अ^०, २खिल^०-
१अ^०, नि^०, ४ध^०, १खुर- १खुर^०,
२खुर- अदि^०, १एव^०xx, १खुरी-
>खुरिका- ४अ^०, २खुर^०-,
*खेट^०- २खेत^०, खेट-क^०-
प्रति^०, खोट(वत्रा) ३- १अ^०,
*खोर^०- १अण^०

√ख्या अथु^०, अथुव्या^०, अथुसम्^०,
अथा^०, अमि^०, अमि^०, अमिसम्^०,
अम्या^०, अय^०, अय^०, उय^०, उयसम्^०,
उया^०, परा^०, परि^०, परिसम्^०,
यया^०, प्र^०, प्रति^०, प्रतिसम्^०, प्रया^०,
वि^०, व्या^०, संख्या^०, सम्^०, समा^०, सम^०,
मय, कया^०- , कयात्, ता-
यया^०, *कयातय- , *कयातुम्,

a) पृ १५८ क्षुरवधि-> वति (तु शीघ्री भाष्यम्) । b) पृ १५८ क्षुल्लकवैश्वदेवस्य शक्यस्वस्थाने
यनि श्लोष । c) पृ १५९ क द । d) पृ १६० यनि द । e) द प्र । f) प प्र । g) हक प्र ।
h) हकयक प्र । i) खौर विद् प्र । j) यम प्र । k) वैप १ द । l) पृ १६४ यनि मत्प्रागभेद द ।
m) पृ १६३ खर-> यनि द । n) पृ १६४ खर-, यर-> यक यनि द । o) = मीति शिरोप ।
p) = खट्वायन- इति पूर्वनिर्देशात् तत्रोप द । q) = मत्प्रागभेद- । r) = सलील- । तु वाद्य । s) विप.
(प-) । खा^० इति शीघ्री ३ (तु अरम्) । t) पृ १६९ यनि खट्वायन द । u) = रिक्त-प्रदेश- । धु १ ।
v) पृ १६० एव खट्वा श्लोष्या । w) = कुण्ठित नगर- इति पञ्चाङ्ग । x) खामे प्र । y) खण्ड- ।
z) = यज । a¹) खी अथ, अयन क प्र ।

रघात-^१, रूपान-^१घोर^०, पुस्^०,
 रसमान^०, रसुर^०, रघाएन-^१,
 रघाएवमान-^१, रघावित-^१,
 रघाव्य, रघाव्य, रघावपन्,
 रघावमान-^१, रघाविका-^१,
 रघाविद्-^१, रघाव्य-^१, रघ्ये,
 रघ्य-^१, रघिवापविद्-^१, रघि-
 रघासत्-^१, रघिख्यासा-

ग

ग ऋण^०, गम-^१, गग्-^१,
 गग-^१ √ गं (परि) द्, गङ्गा^०-
 गङ्गु, महल^०, √ गच्छ्, गम्,
 गच्छति द्वि० १, २, ३^० [गच्छा^०,
 शक्ति^०, अवि^०, अतु^०, अतुष्मा^०,
 अन्व^०, अन्ना^०, अन्^०, अण^०,
 अणि^०, अग्नि^०, अग्नि^०, अग्निसमा^०,
 अग्ना^०, अग्न्यु^०, अन्^०, अ^०,
 उवद्^०, उ^०, उवसम्^०, उवा^०,
 उवाधि^०, नि^०, निद्^०, परा^०, परि^०,
 पर्या^०, प्र^०, प्रति^०, प्रतिसम्^०, प्रत्या^०,
 प्रत्युद्^०, वि^०, विनिद्^०, व्य^०,
 सनि^०, सम्^०, समधि^०, समन्वा^०,
 समा^०, समुद्^०, समुपा^०।^१ २ ग,
 गा-^१ १ अ^०, अग्ने^०, १ अद्^० × ×,
 गच्छत्-^१ १ अ^०, गच्छमान-^१,
 गच्छान-^१, गच्छ-^१ अग्ने^०, गु^० × ×,
 गाव, गा-^१ १ अद्^०, अग्न्य^० × ×,
 गावधी-^१ १ अ^०, गवय-^१, गति-
 १ अ^०, १ अग्ने^०, अत्यन्त^० × ×, गति
 (-ग)-अन्वा^०, गति पथ-^१ १ नाना-
 रक्षद्^०, गति-^१ १ अ^०, १ अ^०,
 १ अ^०, गति विधात-^१ एकान्तु
 दात^०, गति-समाप्त-^१ श्रा^०,

गव, गरा १ अ^०, गय-^१,
 गन्तव्य-अग्ने^०, गन्तु-^१, गन्तुम्,
 गन्तु-^१ १ अ^०, गन्तोस् ()^१, गन्तव-
 सु^०, गम-^१ अस्तुम्^०, १ अ^० × ×,
 गमन-^१ अगम्या^०, १ अ^०, अघ्ना^० × ×,
 गमन सहासत-आयन-^१ कनुमती^०,
 गमनी(द>)वा-^१ १ अ^०, गमयत्-
 गमयित्वा, गमय्य, गमस ()^१,
 गमिन्-^१ अगम्या^०, गमिनी-
 उदधि^०, गमिष्यत्-^१, गम्य, गम्य,
 स्या-^१ १ अ^०, ज्ञान^०, यज्ञ^०, गम्य-
 मान-^१, गा(गक>)मिका-^१ प्राच्,
 गामिन्-^१ अगम्या^०, १ अ^० × ×,
 गामिनी-^१ १ अ^०, उत्तर^० × ×,
 गागु-^१, गू (< गु -) अग्ने^०,
 ग्म-^१ सु^०, जगन्वस-^१, जगमान-
 जगम-^१ रघावर^०, जगमिष्यत्-
 जिगाह्य-^१, जिगासमान-
 गच्छ (पथ)^१- आनते^०, गज-
 १ अ^०, अरत्तर^० × ×, गङ्गु-
 कण्ठ^०, गिरभि^०, गङ्गुल-^१ गालथ^०,
 गङ्गेर-> रक-^१ दोरक^०
 गण् अतु^०, उव^०, परि^०, वि^०,
 गण-^१ अहोलिङ्ग^०, अग्नि^० अनाहण^० × ×,
 गण-^१ अहण-^१ पत्ति^०, पति^०, रथ^०,
 गण श्रेय-^१ कुण्डाक्षिन्^०, गण-
 यज्ञ-^१ २ अ^०, गणदाद-^१ सर्वादि^०,
 गणा(ण)धिप-^१ महादेव^०, १ अ^०,
 गणाक-^१ अभिसत्^०, गणिका-
 अभि^०, गण^०, तस्वर^०, गण्य-
 १ अ^०, १ अणक^०, गणन-^१ क्रिया^०,
 गिवाभ्याहृति^०, गणवा-^१ अरिध^०,
 उद्योतिस्^०, मासवर्ष^०, गणित-^१,
 गण्य, गण्ड-^१ ललाट^०, पृ^०,

गण्डक^१- मृग^०, गद् अतु^१,
 अतुन^०, अभिति^०, मि^०, परि^०,
 प्रतिनि^०, सनि^०, गद-^१, गद-^१,
 गद-^१, गदित^०, गदिन्-^१ १ अ^०,
 गद्य, गद-^१, गदिन्, गद-^१
 १ अ^०, गद-> गद-^१,
 गदा-^१ गद-^१ गद-^१-^१ हस^०,
 हसी^०, गध अण^०, का^०, परि^०,
 गध^१, गधित-^१, गधा-^१ त्रि^०,
 गन्ध अण^०, गन्ध-^१ १ अ^०,
 गन्धत^० अतोदक^० × ×, गन्ध-
 रत्न-^१ सर्व^०, गन्ध-हारी-^१ निर्मा^०,
 गन्ध^०, गन्धोदक-^१ तिलनिध^०,
 गर्भिन्^०, गन्धि-^१ १ अ^०, आगम^०,
 गद^० × ×, गन्ध-^१ १ शत^०,
 गन्धर्व-^१ शोषधि^०, शेर^०, शैव^०,
 पिशाच^०, सोम^०, गन्धर्व-
 वासुर^०, गी^०, गन्धर्व-पुरोगम-
 १ अ^०, गन्धर्व-विमान-अद्भुत^०,
 रदन-द्विद्वरत्रीगीत^०, गन्धर्वा
 (बं अ) रसरत्न (क)-^१, गन्धर्वा-
 (बं अ) पत्तो-जन्तु (क)-^१ १ अ^०
 गन्धार-> गन्धार-^१ निवार^०
 गम्भस्ति-^१ उदधि^०, गीर्वा^०, हन्^०
 गम्भीर-^१ उदधि^०, गम्भीर-
 निस्वन-प्रहान्तर्गतसक्ति^०, गण्य-
 महल^०, ग(ग>)धी-^१ √ गि (परि)
 द, गेगर-^१ पाव द, १, १ अ^०,
 गद-^१ कुण्डाक्षिन्^०, गद-^१ दाविद्-
 तस्वर^०, धगर-^१ √ ग (गन्धे)
 परि द, गर्ग-^१ बाहुर्मा द^०,
 गारद^०, २ अ^०, गार्ग्य-^१ जानति^०,
 गैरिति^० × ×, गार्ग्य-काश्यप
 गारव-^१ १ अ^०, गर्ग-का(म्य>)

०) १ ११८ वनि संध्याभेदे द । १) १ ११८ १० > १ द । २) वनि वेप १, १२-६ ० द ।
 ३) भोरे कर्त्तरि च कृत् । ४) वैप १ द । ५) = देव-सिरोप । ६) रगर्षे प्र । ७) १ १०४ वनि संध्या-
 भेदे: द । ८) नाम (वप- [पठ-ग]) । ९) १ १०५, १०६ वनि संध्याभेदे: द । १०) अर्षे षु च ? ।
 ११) चरते कृत् । १२) गत्य, वनि, रयन्-सोप ।

म्वा- पाताम ७, ३ ४४
 √गर्ज् प्रति°, गर्जन- मेघ°, गर्त-
 १वच्छ°, १गोमय° जि°xx, *गर्त-
 देशम् वीरि १, १५, २°, गर्दभ-
 १अस्व°, अश्वतर°xx, गर्दभी-
 बडवा°, गर्भे- १अ°, अग्नि°xx,
 गर्भकार- नस्°, गर्भाशन- अतु-
 सगमन°, रगर्भिणी- १त्रातिथि°,
 १दुमार°, गर्भे (मै-ए°)°, √गर्हं
 वि°, गर्हा- कर्मन्°, पदार्थ°xx,
 गर्हित, ता- १अ°, १गर्हा- इन्°
 *रगर्हा- पलाश°, √गल् >
 गालन-> *गालिनी- १अम°,
 गाल- १अजा°, १मयूर°, *गल-
 कपोल- १स्वूल°, गल्लर°,
 *गलायल- पलाश°, √गल्म्
 ध्व°, अत्र°, प्र°, *गलभ-, गलय-
 एकधुर°, २गौर°, १चेट°,
 *गयस- २अङ्ग°
 गवाक्ष-, गवी- गो- (परि) द
 गवेधुक-शहाटन°, √गह् परि°,
 *गह- दुर्°, गहन- इ-दू°, १गह-
 १गिरि°, √गा २उठा°, अति°,
 अधि°, अतु°, अन्त°, अत°, अपि°,
 अणि°, अग्रा°, अष°, अा°,
 २उद्, उदा°, उप°, उपनि°,
 उपप्र°, उता°, नि°, पठा°, परि°
 परिप्र°, प्र°, प्रति°, वि°, नप°
 समा°, *१गा- अमे°, अपे°,
 पुरस्°, *१गाय, *गाय- १उठ°,
 *१जिसीपत्-, २गा-, गाश-

√गै (परि) द, १गात्र- अन्न°,
 चिरमन°, *गात्र-क- १तुल्य°,
 १गाधिद-> गाधिन- *ना°,
 २गाद्-, गादिन- √गद्(परि) द
 √गाध् > १गाध- १अ°
 *२गाघ- शरर°, १गाग्धार-
 पद्°°, पद्ब्रजपम°, गामिका-
 √गच्छ् (परि) द, *गांमघ-
 १विद्राक्ष°, २गाय, गायक-
 √गै (परि) द, गार-, गारिद-
 √गृ (निगच्छे) परि द
 गालय- गदुल°, गार्म°, चिकि-
 *गाल रि- चिकि°, गात्रेप-
 गोष- द°
 √गाद् अति°, अमिप्र°, अग्रा°,
 अत्र°, उठद्, उा°, प्र°, वि°,
 सद्°, गाठ- उप्त°, १गाह- उद्°,
 १उठक°, *१गाह-, गहन-,
 गाहमान-, *गाहिद-, *गाह
 २गिद्-, गिरत्- √गृ (निगच्छे)
 परि द, *गिरस्- चहत्°,
 १गिरि- नय कीट २ १५, ५°
 [रि- अत्र(न>)ना°, अटद्°,
 विभुत्°, आला°, सय°, साधक°xx]
 *गिरिकार्णिका- करवीर°, गिर्वि
 √गृ (निगच्छे) परि द, गीध-,
 गोष √गै(परि) द, गीर्ण-, गोष
 √गृ(निगच्छे)परि द, *१गृ-
 घृत°, २गृ- गो- (परि) द
 गृग्गुल- मोविदार°, पूतदार°, गृगा
 लर का°, गृह्-> *गौह-

गामिष्ठ°, गुडा, ल]- उप°, उपदस°,
 १तुल्य°xx, गौडिक- शुद्धोदन°,
 गौडी- पायस°, *गुडा(ड ३आ)उप-
 सुम्भ-शकल- ४४°, *गुडो(ड-ओ)
 दन- शुद्धोदन°, १गुण- १अ°,
 १अत्र°, अतु°, अन्तराल°xx, १गुण-
 मूल-प्रधान°, *३गुण-विधि-दुर्ग-
 ता°°, गुणि(त>)जा- तहल°,
 गुणी√भू > *भात्र- १दन्व°,
 २गुण- शकार°, प्रकारान्त°xx,
 २गुणमूल-, २गुणविधि- १अ°,
 √गुण्, गुणित्व, *गुण्य अद्°,
 *गुण-गात्रदु २, १०, गुद्-१उपस्थ°,
 नाथनी°, लोष्टिकापरिसृष्ट°, रथविष्ट°,
 √गुप् अधि°, अतु°, अमि°, अा°,
 नि°, गुल- १अ°, ४चि°, अमर°,
 गुप्ति- दार°, प्रजा°, १गोप- दुर्°,
 १देव°, ध्रुव°xx, गोपन- आत्मन्°,
 *गोपाय- २धर्म°, गोपायि- २ए°,
 गोप- १मत्°, गीता°, *गुम्मम-
 सत्°, √गुद् अत्°, अत्°, ला°,
 उठद्°, *गारम्, *गुर-, *गुरवित्-,
 *गूर्ण-, गूर्ण, र्ण- राधन्°, १स्व°,
 *गूर्ये, *गोरन-, *गोरम्
 गुरु- रम् शाश्व १, ८, १०°
 [र- १अ°, अति°, अचर°xx],
 गीरन- गुरु°, *गुरु-गर्भ- १अ°,
 गुरुगोति-, *गुरु-गोठ-विपेवित-
 वसनानकरात°, गुरुलक्ष्य- १अ°,
 ब्रह्महत्या°, गुरुलक्ष्य- ब्रह्महृत्°,
 गुरुलक्ष्यममन- ब्रह्महाया°, गुरु-

a) तु गैर्षे । श्लेषे पृ ५८२ उद् । b) पृ ५८१ आरम् > वनि द । = १अत्र° इति द ।
 c) पृ ५८३ वनि द । d) पृ ५८३ वनि सल्लयभेद द । e) = इत्थं चिरेव । f) गलन-> वनि.
 द । g) नाप (शुभ-?) । h) नाप (देश-विशेष-?) । i) वैप १ द । j) पृ ५८६ -ना > गहद् वनि ।
 k) पृ ५८६ वनि सल्लयभेदः द । l) नाप (वाति-?) । m) गात्रेण > वनि द । n) अर्पे षु व ।
 o) पृ ५८० j) > ३ द । p) पृ ५०३ उद् । q) पृ ५८५ वनि सल्लयभेद द । r) द्रव । s) पृ
 ५५१ वनि सल्लयभेद द । t) सल्लयं वा अत्रन्त वा । u) माप । v) पामे पृ ५५४ द द ।
 w) अन्वयं d नेधम् ।

गुह- भुक् अमभू ८^१, *गुह पूजा-
 वतिशिवपूजा, *गुह प्रतिगुह- अ
 विष ४५, १८, गुहप्रयुक्त- १अ^०,
 *गुहप्रत्यय- अप्रतिहत^०, गुहयोचम-
 >*गुहयोचमा(म-अ) र्थ- १अ^०,
 *गुह(र-अ) तुहा- आमोषक^०
 गुहि(र>)णी- प्रज्ञाचारि^०
 *गु(रु>) लिका^०- रौद्र^०
 गुह्युल- लु [गु-वेद^०, मन्त्रोक्त^०],
 ✓गुह्यु उचि^०, गुह्यु- आ^०,
 वि^० गुह्यु- हुम^०, १गुह्यु^०, १वि^०, २^०,
 १अ^०, २अ^०, १भा^०, *गुह्यु-दुम
 ल- गुह्यु^०
 ✓गु गृह अ^०, ३अ^०, ३अ^०, २उद^०, ३अ^०,
 नि^०, *२गृह^०- शु > पू^०, १गृह^०,
 तुहा- नीरा माथी १, २, ४, ४^०,
 माथी १, २, ११ [गृह- १गिरि^०,
 २अ^०, १समुद्र^०, सुवर्ण^०], *गृह,
 गुह- कर्म वाप १६ ७^० [गृह-
 प्यान^०] २गृहप(वप्रा)- १अ^०,
 गृह- गृहो वप्रा- १अ^०, *गृहव-
 उचि^०, *गृहमीय- १अ^०, *गृह^०-
 कर्म^०, १गृह- १अ^०, १अ^०,
 १गृह^०- इनल^०, गृहयित्-
 गृह- प्रय ✓गृह (रि) द, १गृह-
 प्रभापते^०
 ✓गृ (अधोपमे) प्र^०, प्रति^०, जग-
 रण- इ वाधान^०, आह्वनीय^०,
 अगृ^०, ✓गृ गृ (र-रे) अलु, अगि^०,

अभिप्रति^०, अभिसम्^०, परि^०, प्रति^०,
 प्रवा^०, सम्^०, ४*गार- अरम्^०,
 १गिरि- २उ (प>) वा^०, गुह्यन-
 लयन^०, *गुह्यन-क- लयन^०,
 गुहा^०, गुह्य- > गुह्यमद- >
 गार्यमद-मागुह्यन्दस^०, ✓गृह्य >
 गय- हुमुवा^०, गृह्य- १अ^०,
 कलिङ्क^०, १गृह्य^०, ✓गृह्य ह,
 प्रभू, ह, जगृभं काय ९, २^०,
 १जगमम माय १, ४, २^०, वाय ८
 २^०, अग्रमैपम माय २, २१: १०^०,
 गृह्यानि आपथी १८, १२, १०, गृह्याण
 आगि १, ५, ५ १४^०, जगृह्य > ह्य
 हुपू ३, १० ३१^०, गृह्यान्ते आगृ
 ३ २^० [अति^०, अगृह्य^०, अगृह्य^०,
 अगृह्य^०, अगृह्य^०, अगि^०, अगिनि^०,
 अगिरि^०, अगिसम्^०, अग^०, आ^०,
 आगृ^०, २उद^०, उच^०, उचि^०, उचप^०,
 उचसम्^०, उचोद^०, नि^०, निदृ^० न्यव^०,
 परि^०, परिप्र^०, परिस्म^०, प्र^०, प्रति
 नि^०, प्रनिनिदृ^०, प्रत्युद^०, वि^०,
 गिनि^०, न्यव^०, व्युद^०, सम्^०, सम-
 तुपरि^०, ल्युद^०, समुप^०, लपरि^०, सम^०]
 *गृह्य- १अ^०, *गृहि- ह्य^०,
 गृहीत- १अ^०, गृह (वप्रा) - द्या
 बीय ३, १, २२^०, -हे वा^० मं २, १३,
 १^० [ह- प्रधावा .. हं, अगि^०,
 सह^०], *गृह चटक- ३अ^०,
 गृहद्वार- सुप्रसभ^०, गृहपरि- १अ^०,

अ-गृ^०, प्रजापति^०, गु^०, गार्हप-
 १गृह^०, गृहि^०, १गार्हपत्य- अन्त
 पादय^०, श्रामीप्रीय^०, आह्वनीय^०,
 गृहपति- १अ^०, अगृह्य^०, वेगि^०,
 ४अ^०, गृहपतिगण- सहस्ररु^०,
 *गृह-वृत्त- प्रात^०, *गृहा(व-अ)-
 उच^०, गृहस्थ- प्रज्ञाचारि^०,
 १गृह- १भूत^०, गृहमान^०, १अ^०,
 गृहीत, वा- १अ^०, २अपति^०,
 १अगृह^०, गृहीतवा, गृह्य- १अ^०,
 गृह्य आगि २, ७, ७ ११ [अ
 उरि^०, मानय^०], २गृह्य^०,
 गृह्यामाण-> *गृह्यामाण काय^०,
 *गृह्यामाण-विशेष^०- १अ^०, अग्रह-
 १अ^०, १अ^०, अग्रहदाभ्य^०, अग्र-
 णी(वप्रा)- पुषदाज्य^०, गृह^०, सोम^०,
 हवि^०, *अग्रह धारणो(र-उ) चारण-
 स्वरकर^० उच^०; *अग्रहि^०- एल^०,
 कने^०, *अग्रहिणु^०- एल^०, *आम-
 १हृत्त^०, आह^०- १अ^०, चानर^०,
 तिगिरि^०, आह^० १अ^०,
 हि^०, आहि^०- १अ^०, अर्थ^०,
 आह- १अ^०, १अ^०, गृष्टि- वा
 २, १, १५ [गृष्टि- मरुत^०] ✓गृ
 (निगरणे) अरि^०, अभि^०, अर्थ^०,
 २उद^०, नि^०, निदृ^०, प्र^०, प्रति^०,
 समुद्र^०, अगृह्य^०, *गार-
 *गारिद^०, *२गारि- ३अ^०,
 *गारिद^०, *गारिद^०- वाउदु ३, १०,

d) मनि स्थल शोध ।
 d) कर्तारि कर्मणि वा शरः । e) पृ ११६ गुहादि इति नेष्टम् । f) पाणि वेप १, १२० c m d । g) वेप १
 द । h) पृ ११७ मनि सप्यासहेन. द । i) कच् प्र । j) पृ ११८ मनि सप्यासहेन द । k) र्शार्थे प्र ।
 l) वेप १, ११२६ हृद । m) पाणि वेप १ परि. जगृह्य अ ८, ६, १० टि द । n) पृ १००० मनि स्थल
 शोध । o) सप्र द्विधौ १३, ५, ४ वेदवति इति पाणि । p) पाणि. पृ १११ गुद । q) पृ १००० मनि द. ।
 [वपयगात्] वा- । r) पाणि लौ १३, १, १३ हन्मुन्ते इति पाणि । s) कर्तारि हृत् । t) = निजग,
 २) हन्मुन् प्र उरं (वा ३, २, ११८) । u) पृ १००५ मनि. सप्यासहेन: द. । w) वत ।
 १००५महेन: द । x) अगृह्य-त णाडत नञ-त वा । y) पृ १००६ मनि

गिल- १३०, गिल, विमिम् x, *गोषं- ३गर, *गीर्ष, *गोष् (सेवने), गेह- ३३०, १२०
 गै, गांवेत् साधौ १, ८, ११०
 [अच्छा, अनु, अमि, अश, आ, २३३, परि, प्र, प्रति, प्रत्युद्, सम्, संप] *धग- छन्दस्, ज्येष्ठपामन्, वीणागण, १रामन्, *ग(व>)पी- २म्, *रगा- ३जु, *ग वृ, गाथा- १३०, [इष्ट- प्रवृत्ति, ऋत् x, गान- ३शाज्य २आद्य x, *गापन-, *रगाव, *गावक- तस्कर, गावत्- १३०, गावत्र- औषिह, आगत, त्रिपाद्, ४स, गावत्रो- बलपुम्, आर्षी, आसुरी x, गायन- गण, गीत- अग्नि, अन्न, आचार्य x, गीति- अग्निनिष्ठ, अम्बस्त, उदात्त x, *गीथ-, *गीय, गेव, या- याति [७, या- अरये, प्राप्ते]

गो- गा आपधी २२ ५, १२, गाव हिप्रौ १७ २, ४० [गो- १३०, १अज, १अतिवि x, गत्र- बन्तु, अशशी, १अष्टन् x, *गवी आसुरि, उदवसथ, ववाण x, *गवा(व-अ)स- द्वार, द्वारदेश, गवाक्ष(क)- विद्युद्गण, गवादि- १३०, गवान्त- कन्यावृत्, गवाणुस- दवरामन्, गवाहिर- ३पुप, २गव- १पगन्, हु, गवृत्ति- १३०, १उ३, परस्, *२सु- अण्ड, ३जु,

आशितम् x, गोक्षीर- कुन्द, मयूरगल, *गोक्षीर-हेमा(ग अ) रूप-नडित्-प्र(मा>)म- वुरगटा- कृति, गोचर- अरण्य, तरव, गोचर्मन्- नयान्तन, गोज- पा ६, ३, ४३ [०त्र- १अ, अत्रि, अनुक्त, अन्व x] *गोत्र वृक्ष- कल्प- यथा, गोत्रनामन्- ३वर, *गोत्र प्रवर- पुरोहित, गोत्रादि- १३०, गोत्र-तेवासिमाष, *गोत्रा(त्र-अ)र्थ- १अ, *गो-व- विस्व, १गोदान- अग्नि, १कृत, गोदुह- प्राम, गोदोह- द्वाग्, गो- दोहनफाल- आ, गोनामन्- > *गोनामिक- अनुपहित, गो पति- सप्तति, १गोपाल- दश, गोपुच्छ-> *गोपुच्छ सरया परि- माण-, *गो प्रापग- १३०, १गोमय- अरमन्, १अर्त, १गृष्ठा x, गोमासु- वृत्, विड- राह, ३वर, गोमुख- भेरी, गोमूत्र- सुद्, गोसृग्- १२५०, तृप, गोपान- १हस्तिन्, *गोनख-, *गो रक्ष- कृपि, गोरस- आर्षिपपि, *गो रुव- १अ, गोरोचना- वीणा, *गोर्- दोह-काल-, *गोर् दोह-मात्र- आ, गोपाल- पुष्करत-तु, *गो वास- उन्नन, गोविकर्त-, *गो-व्यच्छ- अथावाप, गोशकृ- १हरित, १गो यद्- १२५०,

*गो-पद्, दम्] (> ०दक- पा) पाम ४, २, ६२, गोष्ट- अन्तद्, अपिनिवास, गुण, दिव्य म, परस्, गोप्य- १अ, गोस्य- श्रवण, गोसादि-, *गो-वृ- १अ, गौतम- अत्रि, २गौर, १गामदेव, विश्वामित्र, गौतम- आग्निश्च, आत्रित्, ३श्रीशानस x, गौतमण्ड-> गौतमण्ड- लौमण्ड, २गोदान- दौटवर्मन्, गौत, विशाह
 १गोधा- गृह, २वृक, ३रुक्, २शविध, गौधेर- (> १का यनि-), गोधूम- तिल, नमहु, ३यव, मोहि, *गोधूम यव-पिष्ट - विकार- रागताण्डव, *गोधूम- शलि- पक्व, ३गोप-> गो- पापन- १काल, गौपाप- न साव १, ४४८, ४गोप-> पा- नि, गोपक- √गुप् (परि) द, गोपचन-> गौपचन- १अ
 गोपा- १अदि, हु, सोम, गोपाय- √गुप (परि) द, गोपुर- इन्द्रलीला, उभट, २पुर, प्राताद, गोरण-, गोरन् √गुर् (परि) द, गोलक- २कुण्ड, तस्कर, गो लक्षण-, गोह- √गु, ह (परि) द, गौह्वच- कुण्ड- (परि) द, गौर- उण, गायनहृत्, कुन्दगोभी x, गौर- सर्वप- १गोमय, गोशकृ, २व,

a) पृ १००७ सेवन > गाल द । b) पाठ १ गाये (उपु१) इति शोध (द्व. सप की २, ११७५ द्राघी २, ४, ११ च) । c) वैप १ द । d) विन, माप स्त्री । e) पृ १०१० 'ला.मी ४, ५, १' गणम् । f) परस्पर पाठे । g) पृ १०१४ यनि द । h) वैप १, १९३० III द । i) उप गाप । j) दश उप कर्ति कृत । k) अर्थ ३ । l) पृ १०१७ १] > ३ द । m) पादा पाति पाठ । n) पृ १०१९ उप कर्ति कृत । o) अर्थ १ । p) आत्र-पार्थिव अण् प्र । q) पृ १८९ १ द । r) अत्र-शर्थे प्र । s) यनि स्थल शोध । t) पृ १०१२ यनि शोध । u) पृ १०१३ अय निर्देशे देष्ट । v) पृ १०१३ अत्रय III पाठ २, २८ इत्यत्र देवम् ।

प्रियङ्गु°, प्रित्व°, गौरा(र आ)दि-
१अ°, गौरीचिति- २ज्ञानज्ञीण°,
गौरीचित- स्वावाक्व°, ४अ°

१, १२८°, १ग्राम्य- १अ°, १ग्राम्य-
कुक्कुट- विपु वेष्कर°, १ग्राम्य-
मोजन- १, १ग्राम्य शूकर- २अ°

१अरि°, नव°, महत्, १गुण°,
जग- पविन्°, शोणित°, १अपी-
पुन°, २घाट- ✓हृत् (परि) द,

✓गमन्, १मन्- प्र°, ✓अधृ, अधृ,
जग-य* [मा°, २२६°, ३५°,
नि°, ३°, प्रति°, वि°, व्युद्, सम°],

१ग्राम्या(म्य-१अ)अ- १हस्तिन्°
प्रायन्- ऊर्ध्व°, १२धु°, २हृत्, युक्त°,
सोम°, प्रावस्तुत्- प्रस्तोत्°,
शालद°, युद्धशाल°

१घातक- २घातक- (>
की-), १घातम् ✓हृत् (परि) द,
घासकुन्द- (> १विक्- पा)

१अपान°, १प्रधत्- १अपान°, १अपान-
शलाटु°, १अपान- १अप्य, १अप-
१अ°, १अप- १अपित°, १अप्यन-

१श्री(व >)वा- उत्तरपरिचय°, उदन्°,
उदीचीन°××, १श्रीप्प- वसन्त°,
शद्, सु°, हेमन्त°, प्रैम्, एमा°,

१घुट- हस्त°, घुट सहा- >
१शिक- नादि १, ५, १६, घुटसहित-
तम् नादि १, ५, १६, -ते नादि

१अपि (-अ)- १दशा°, १अप्य
(गि-अ)मिमधेन- परिशीवन°,
१अप्य- शलाकु°, सदाकु°,

१श्री(व >)वा- उत्तरपरिचय°, उदन्°,
उदीचीन°××, १श्रीप्प- वसन्त°,
शद्, सु°, हेमन्त°, प्रैम्, एमा°,

१घुट- हस्त°, घुट सहा- >
१शिक- नादि १, ५, १६, घुटसहित-
तम् नादि १, ५, १६, -ते नादि

१अपान- ✓गुम् (परि) द, ✓अस-
अभि°, सम°, प्रस्व- १अ°, प्रास-
हस्त°, गो°××, अह- पाप ४, २,

१श्री(व >)वा- उत्तरपरिचय°, उदन्°,
उदीचीन°××, १श्रीप्प- वसन्त°,
शद्, सु°, हेमन्त°, प्रैम्, एमा°,

१घुट- हस्त°, घुट सहा- >
१शिक- नादि १, ५, १६, घुटसहित-
तम् नादि १, ५, १६, -ते नादि

१अपान- १अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-
१अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-
१अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-

१श्री(व >)वा- उत्तरपरिचय°, उदन्°,
उदीचीन°××, १श्रीप्प- वसन्त°,
शद्, सु°, हेमन्त°, प्रैम्, एमा°,

१घुट- हस्त°, घुट सहा- >
१शिक- नादि १, ५, १६, घुटसहित-
तम् नादि १, ५, १६, -ते नादि

१अपान- १अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-
१अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-
१अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-

१श्री(व >)वा- उत्तरपरिचय°, उदन्°,
उदीचीन°××, १श्रीप्प- वसन्त°,
शद्, सु°, हेमन्त°, प्रैम्, एमा°,

१घुट- हस्त°, घुट सहा- >
१शिक- नादि १, ५, १६, घुटसहित-
तम् नादि १, ५, १६, -ते नादि

१अपान- १अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-
१अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-
१अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-

१श्री(व >)वा- उत्तरपरिचय°, उदन्°,
उदीचीन°××, १श्रीप्प- वसन्त°,
शद्, सु°, हेमन्त°, प्रैम्, एमा°,

१घुट- हस्त°, घुट सहा- >
१शिक- नादि १, ५, १६, घुटसहित-
तम् नादि १, ५, १६, -ते नादि

१अपान- १अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-
१अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-
१अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-

१श्री(व >)वा- उत्तरपरिचय°, उदन्°,
उदीचीन°××, १श्रीप्प- वसन्त°,
शद्, सु°, हेमन्त°, प्रैम्, एमा°,

१घुट- हस्त°, घुट सहा- >
१शिक- नादि १, ५, १६, घुटसहित-
तम् नादि १, ५, १६, -ते नादि

१अपान- १अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-
१अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-
१अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-

१श्री(व >)वा- उत्तरपरिचय°, उदन्°,
उदीचीन°××, १श्रीप्प- वसन्त°,
शद्, सु°, हेमन्त°, प्रैम्, एमा°,

१घुट- हस्त°, घुट सहा- >
१शिक- नादि १, ५, १६, घुटसहित-
तम् नादि १, ५, १६, -ते नादि

१अपान- १अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-
१अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-
१अप्य, १अप्य- १अप्य, १अप्य-

१श्री(व >)वा- उत्तरपरिचय°, उदन्°,
उदीचीन°××, १श्रीप्प- वसन्त°,
शद्, सु°, हेमन्त°, प्रैम्, एमा°,

१घुट- हस्त°, घुट सहा- >
१शिक- नादि १, ५, १६, घुटसहित-
तम् नादि १, ५, १६, -ते नादि

१) गमि वैप १, २२६० द। २) = सायक। ३) १११० ११ द। ४) १०२९ २ 'हृत्'
हृत्वे द। ५) ११११ १ द। ६) १०२० 'म्य(म्य अ)मो' > यनि द (हृ वीन)। ७) = प्राव-
स्तुत्। ८) १०२२ यनि द। ९) = तुल्य-विशेष-। १०) वैप १ द। ११) = वर्ण-विशेष-। १२) कर्मणि
प्र। १३) १०२३ ३० > प्र द। १४) १०२४, २००८ यनि सट्सासकेत् द। १५) १२४४ ह
द। १६) १०२४ 'मि' > यनि द। १७) १०२४, २००८ यनि सट्सासकेत् द। १८) १२४४ ह
द। १९) १००० १ द। २०) गमि वैप १, १२०२ वृ द। २१) प्राव। २) १०२३ ० 'धि' > यनि
द। २२) सायक १४, १०, ५ > यनि द। २३) १०२९ १० > प्र द।

१एक*xx, अकारिशम्भाल- त्रिंश-
 न्मान, तुरीय- इन्द्र°, सुर्ष°- पाग
 २१,९ [थिं- काश्य°, तृतीय°, द्वि-
 तीय°], १चतुर्°, १चतुर-सगत-
 १थ°, २चतुर- चतुर्- (परि) द,
 ✓चन् > चनस्- रवृ°, ✓चनस्य
 > चनसित-> *तव(त >) ती-
 निषक्षण°, चन या २, ४१ [न
 रिम्], १चनक- पाठदु ६, ४९
 ✓चन् > चन्दन- अर्ष°, ३रक°,
 रोचना*xx, च-त्र- १अर्ष°, अर्ष°,
 १देव°xx, १च-द्र-कारक°- आ°,
 १चन्द्रमस्- दिश°, नक्षत्रग्रह°,
 १चावित्री°, २सर्व°, १चान्द्रमस-
 > *सी-सौरी°, १चन्द्रमस-
 २सर्व°, च-द्रसर्व- उवयात°, चन्द्रा-
 यन्-> १चान्द्रायण- १यति°,
 १विष्णु°, गामान्य°, चान्द्रायणग्रह-
 नित्य°, चन्द्रार्क- नष्ट°, १चपल-
 १डुमार°, नेत्र°, पाणिपाद°xx,
 चापल- मिरलो र्°
 ✓चम् अ-वा°, आ°, नि°, समा°,
 १चमन-, १चमविद्या, १चमप्य,
 चमस- १अ°, १अक्षु°, अग्नि-
 शोम°xx, चमस्साम- अग्निशोम°,
 तन्त्राभरवा°, भस्वान°, १चमसगणो
 (ए उ)न्यत- प्रति°, चमसाप्युं-
 मेशरज°, होत्र°, १चम्य
 १चान-, १चाम-, १चामत्-,
 १चामयत्-, १चामयित्वा, १चाम्य
 चमर-> चामर- चाह°, हात्-
 दृत्°xx चम्- शब्°, १चम्पक°-
 वरणी°, १ नाम°
 चपिन्- ✓वि(वधा) परि द

✓चर्, चर्वाताम् आग्निगृ १, ६, ३ :
 ४४ [अति°, अधि°, अथा°, अतु°,
 अतुपरि°, अतुत्र°, अनुसम्°, अमि°,
 अमिधि°, अमिसम्°, अम्या°, अत्र°,
 आ°, २उद्°, उदा°, उप°, उपकम्°,
 उपा°, मि°, निम्°, परा°, परि°, प्र°,
 प्रति°, प्रतिसम्°, प्रत्यभि°, प्रत्युद्°,
 प्रवि°, वि°, व्यति°, व्यभि°, सम्°,
 समा°, समुत्°] चर्(वप्रा)°- १अ°,
 अन्त°, अप्ठु°xx, १चरण- १अ°,
 १अपर्म°, २अक्षुभ्रम°, उवावच°xx,
 १चरणिष्ठा-, १चरणी-, ✓चरण्य,
 चरत्- अनतिप्रणीत°, धारा°,
 मियुस्°, मिध्या°, चराचर- ४४°,
 चरित,ता- करस्य°, १अभ्य°,
 आदि,न°, सोमसूर्यस्तु°, १चरित
 वेदवत्- १अ°, १चरितवै, १चरि-
 तुम्, १चरितोत्() पा ३, ४, १९
 [१ए प्र°], चरित्र- सत्°, १चारित्र-
 १कुल°, २वत्°, विद्या°xx, चरित्वा,
 चरित्यत्- १अ°, १चरेष्व-, १चर्यं,
 चर्य- ब्रह्मत्°, मिक्षा°, भैक्ष्य°,
 चर्यमाण-, चर्षा- अतिप्रणीत°,
 १अपर्म°, अनतिप्रणीत°xx, २चार°
 अनित्य°, १अत्र°, १अम°xx, चारी-
 २मन्°, १चार वाद-भक्ष- १नाम°,
 १चारक-, २चारण- १चरल°,
 १रत्क°, १चारम्, १चारयत्-,
 चारयित्वा, १चारित-, चारित्- १दु°,
 १एक°xx, १चारिणी- धूर्त्°xx,
 १चार्यं, १चार्य-, १चार्यमाण-,
 १चेर-, १चर्ह (अज्वलने) >
 २चर्ष- हु°, २चरण- १अ°,
 २चर्ष°, २चारण- परित्राजक°, १चरण-

व्यवहार- गणसमग्रधेयोप्रा°
 छचरण- (> छचारण-)
 चरम- पा १, १, ३३ [१व- १व°, अति-
 राज°, पूर्व°], चरु- २अक्षत°,
 ३आज्य°xx, चरणपुत्रोडात-
 ४४°, चररधारी- दर्बी°, प्रथ°,
 ✓चर्च > चर्चा- प्रसृष्टावृत्त°,
 चर्चन- ✓चृत् (परि) द, चर्चम्-
 अविषयण°, २अनङ्गह°xx, १चर्म-
 चर्म(-क)- ४४°, चर्मकार- अग्नि-
 मस्त°, १चर्म-त्रिष्ठिवृ- तरकर°,
 १चर्मा (मै-अ)वृत्-त°- वदर्थ°
 १चर्षण- वि°, चर्षणि- २एवाक्षर°,
 वि°, विरव°, ✓चर्ह अनुत्र°, आ°,
 प्र° वि°, उम्, चर- १अ°, १अर्ह°,
 दुर्°, भूमि°, चरन- निगरण°,
 भूमि°, १चर्ला- १गति°, चलित-,
 चाचलि-, १चाल्-°, १चाल-
 स्वभूमि°, १चालित-, १चाल्य,
 १चाल्य- १अ°, १चालु- श्रोष्ठ°
 चपाल- १अ°, गोधूम°xx, चाक्रिक-
 चक्र- (परि) द
 चाटन- ✓चट्(परि) द, चाट-
 पूर्व°, चात्याल- १अ°, अधि°,
 आग्नीम्°xx, १चान्तराट- ग्राम°,
 १चान्धनि°- आरुद्रायनि°
 च्चाप- इन्द्र°, महोद°, ✓चाप्,
 १चाप्य नि°, चाप्यम्, चाप्य-
 ✓वि(वधा) परि द
 चार- १अ°, उच्चिद्रोत्तर°,
 सुतात्राजम्पुद°, १चार गह- पावा
 ६, ३, १२°
 चार्थ- प्रवृत्त व- (परि) द
 चार्थ प्रस् ✓चट् (परि.) द

a) वृ पागम । b) वृ १०६० चनि सट्पास्येव द । c) अथ उप हल । d) अर्थे.स्यु पा २ ।
 e) नाप (अप-भेद) । f) पा ३, १, १५ परागृह द । g) कर्तृकरणादौ प्र । h) चमना वा चम्पन्त वा ।
 i) माव वा चरि वा चर । j) वृ ११४८ ० द । k) नात्र । उय उप कर्तृदि वा प्र उय (पावा ३, १,
 १२८) । l) माप । m) वृ १०६९ चनि सट्पास्येव द ।

२चाल-चारप, चारय- ✓चल(परि)
 ३, चाप- कलविद्धुं, ३वक°
 + ✓चि पाषा चुरा. उभ भाषापाप्
 + ✓चि (एजायाम्). १धित, ता-
 ३चिति-अं, ✓चि(दधा)प्रधि°,
 वि°, अतु°, अन्वा°, अय°, अवि°,
 अमि°, अम्बुद्°, अत°, प्रा°, २तद्°,
 उप°, नि°, निम°, परा°, परि°, पर्यव°,
 पर्या°, प्र°, वि°, विनिच्°, समू°,
 समभ्युद्°, समव°, समा°, समुद्°,
 २वष°- अमि°, आतस°, अणम्°,
 २दाक°xx, चयन- १घ°, अमि°, अह-
 रद्°xx, +चयिन्-, +चायम् १अ°,
 +चाय- १धित- अमि°, १अरम्°,
 अलश°, विप्°xx, २चित, ता-
 इष्टक°, इष्टका°, १एव°xx, +चित-
 देश-२द्विष्णाप्रत्यक्प्रवण°, +धितव्य-
 १चिति-अमि°, अन्य°, अहरहृ°xx,
 चिति(क)- नि°, १पञ्चद°, चिति-
 होम-अग्निहोम°, +चितिक- १एक°,
 नि°, १पञ्चद°, +चिष्°, १चितय,
 २वा- अमि°, १लोक°, २चितया-
 > १चैव- लिङ्गायतन°, सुष°,
 धिवा १अ°, चिन्त- १चौप-
 मान-, चि- ✓अच् च् (परि)
 ३, चिकित्- > *तगालव°,
 चिकित्सव-, +चित्- ✓किद्
 (परि) ३, चिक्रमिपत्- ✓कम्
 (परि) ३, चिरयापयिपत्-
 ✓त्पा (परि) ३, चिह्याव-
 यिपत्- ✓च्यु (परि) ३
 ✓चित् अनु°, अय°, भा°, प्र° वि°,
 २चित् १°-१अ°, चितवत्-, चित-

१अ°, १एक°, कन्धाण°, प्रायस्°,
 आत°, वाच्°, +चित-पात्रम्-,
 +चित-मनस्- १अ°, चिति- १अ°,
 पूर्ण°, प्रायस्°, चेतन- १अ°, ४ल°,
 चेतना-, चेतयमान- १अ°, चेतस्-
 पाठु छ. ५६[ए- १अ°, कामा-
 तम्°xx], +चैतन- १अ°, +चैतु-
 सु°, शिचिन्- > +चिन्-कर्मन्-
 गदकालीपूजन°, +चिन्-दशन-
 श्रेष्ठात्ताहृय°, +चिन्-भृति-अमि-
 शस्त°, शिचिन्- तिलमात्र°, ३रह°,
 लिङ्गायतन°, वि°, १चैत्र- अमाष°,
 चित्रय- > चैत्रय- आहिरस°,
 धुमि°, चित्रायण- स्वस्वयन°,
 चित्रोदन- सुशोदन°, +चित्रक-
 > चैत्र- १आषाढ°, चिद्
 वधम्°, वद्°, विम्°, ✓चिन्त्
 परि°, वि°, समू°, +चिन्तक-
 अक्षर°, तदा°xx, +चिन्तन-
 २बाधार°, चिन्तयत्-, चिन्ता-
 अथात्°, अत्रार्थ°, बाल्मनस्°,
 स्वर°, चिन्तित- दुर्नि°, +चिन्त्य,
 +चिन्त्य- १अ°, २चिन्ति- >
 +निमुक्, चिर- १अ°, अति°,
 प्रत्यय°, छ°, चिह्न- कपाल°,
 सुदुत्°, +चिह्नित- तदव्यक्षर°,
 खल्ल°, +चीन- बोधव°, चीर-
 अक्षयक°, कण°, १दुर्ग°xx,
 +चु- ६°, चुक्र- रागसाधव°,
 ✓चुच्य ✓शुष्म्, ✓चुद् शुत्°,
 अमि°, प्र°, समू°, चोदन- १अ°,
 १मैद्, तद्°, चोदन- १अ°, अहत-
 लक्षणे°xx, चोदना- १अ°, इया°.

१उद्°xx +चोदना(ना-अ)निधान-
 र- १अ°, चोदयद्-, +चोदय-
 मान-, +चोदस्- १अ°, चोदित,
 ता- १अ°, अर्थ°xx, चोदितव्य-
 निगम्य°, समस्त°, ✓चुप्
 (गती) > +चोपक- गते°,
 २चुवृ- पुरस्तात्°, प्राच्°,
 ✓चुर- चोर- मिश्र°, २चौर-
 कवि°, गुलया°, १अल°, घान्°,
 रोष°, चौर्ध- पार्थिक°, +चोर-
 हर्षोव- १अ°, चूडा- अहत°,
 हि°, १अश्न°, १धुरार्थ°, चौड,
 ह- १अहत°, गर्माधान°, निपेक°,
 विवाह°, चौडक- अतुल्यमन°,
 +चौडक(व-अ)न्त- गर्माधानारि°,
 +चूड(क)- १अहत°, १अम्य°, चूर्पा-
 अन्वयम्°, अश्मन्°xx, चूर्पक-
 कृप°, ✓चूर्प्, +चूर्प्य निम्°
 ✓चृत् अपिक्, अय°, आ°,
 २उद्°, उप°, नि°, परि°, प्र°, नि°,
 +चर्तन-, +चृत्-, +चृत्त-,
 +चृत्त-, +चृत्त्य, ✓चृ, चीर्ण-
 का°, इचेष्ट- > +चेष्ट क-
 १अयुल°, चेद् वा ८, १, ३°
 [१५ १न°], चेदि- शरत्°,
 चेरु- ✓चर् (परि) ३, २चेल-
 १अ°, विलस्त°, ४वा°, चेल-
 १एक°, १हृष्ण°xx, +चैल निर्णोत्तर-
 शकीविर°, ✓चेष्ट परि°, प्रति°,
 वि°, +चैलमान-, चेष्टा- १अ°,
 अश्लोहन°, १अनिल°xx, चेष्टित-
 धुव°, +चैत्य- २कौय°, चोड-
 १अश्न°, ✓च्यु अन्, आ°.

a) आतापयें कृ. b) पृ १००२ वनि सख्यासकेत ३ । c) धा जाने रति । d) पृ १००३
 वनि संख्यासकेत ३ । e) कृत् हृद् > वनि ३ । f) भाष । g) वैप ३ ३ । h) पृ ६४
 १प्रवि- > २- इति शोच । i) = मास । j) अय । k) पृ १००३ १t > ३ ३ । l) नाप. (पाय-)
 m) = वतर्ग- । n) पृ १००८ वनि ३ । o) कर्मणि च्युत् प्र (पासा ३, १, ११३) । p) स्तार्थे
 वाऽत्पार्थे वा प्र. । q) = दाडुनि विशेष- ।

२उद्, प्र°, वि°, विप्र°, समु°,
 +चिच्यारविपत्-१अ°, +च्यव-
 २च्यवन-> १च्यवन-°, +च्यव-
 वन- १अ°, हुन्°, +च्यवमान-
 +२च्यवन-°, च्यावयव-°, +च्यव-
 विपत्-°, +च्यव्य, +च्युत्- १अ°,
 १च्युत्, अण°, च्युत्, वा- १अ°,
 हृत्, १वाहु°xx, च्युति- अग्नि°,
 लघन्°, हृत्°xx, +च्यु य
 ✓च्युत्, च्युत्त हिथ्री १५, ८,
 १२^d [प्र°], च्युति (त>) वा-

छ

१छ- २°, १अ°, १छाछ- ला
 आगिण ३, ५, ४ ४°, १२°, २०°,
 -लानाम् आगिण ३, ५, ४ ४°, १२°,
 ११ [ए-पुत्] छटा- १अत्,°
 +छत्रक- १अहि°, छात्रक-
 लुगन्°, ✓छत्, न्द् अलु°, ४०°,
 अपोद्, अग्नि°, अग्निप्र°, अभ्युद्°,
 अय°, अया°, आ°, नि°, परि°, प्र°,
 प्रति°, विस्म°, व्यप°, व्याप°, समु°,
 समा°, मपरि°, सप्त°, +२छ- २रा°,
 २छत्र- अग्नि°, आत्, उपानह°xx,
 +छत्र-घातय- तुण°, +१छद्-
 गामश्, परम्, भूत्, छद्- १उत्तर°,
 २रा°, दगन्°, छत्रि- एरविशति°,
 नयन्°, पयदशन°, सादशन°, छदिस-
 उद्व°, एकविशति°xx, छत्रिदर्थ-
 १अ°, +१छम्- १अ°, धानि°,
 १मधु°, १स°, +छम्दवद्-, छम्दस-
 १अ°, छम्प्राधेव°, अग्नि°xx,
 छाम्दस- तद्, +छम्दस- इयुर°

अग्नि°, तद्, १देव°xx, +छम्दस
 (क)- तद्, छम्दस- ४अ°,
 +छम्दी(न्दस-अ)नुगमणी- अमुप्र-
 हिक्, छम्दीम- १अ°, उ१°,
 क्रियमाण°xx, छम्दीमदशाह-
 चतुरह°, छम्दीमयद्- चातुर्मा°
 व°, छम्दीमान- वहु°, २समान°,
 छम्दीयोग- २उक्त°, च्छ, वा-,
 +छम्द वस्त्र- १अ°, +छाद्-,
 +छाद्व-, छदन-, छादयत्-,
 +छादयमान-, छादयित्वा, छादित-,
 +छाय, +छायमा(न>)ना-
 छम्दव> +छेवा, म्व इ् ✓क> छम्द-
 कार- १अ°
 छवि, वी- १यत्, +छव- उक्त्वन्°,
 १छाग-गेन मीसुद्, ६, ४०°, +छाग-
 रोह-उद्ग- माल- कालशर°,
 १छात्-। छाया- १अत्र°, १अर्क°,
 १अस्तव्य°xx, +छायो (वा उ)पग-,
 +छायो (वा-उ)पगव-, +छायो
 (वा-व)पगो- १अ°, ✓छिद्
 अतु°, अय°, अग्निवि°, अय°, आ°,
 २उद्, उ१°, परि°, प्र°, प्रति°,
 प्रत्या°, शि°, विप्र°, व्यव°, व्युद्°,
 समु°, संप्र°, छिन्ति-, +छिद्-
 आतुत्, शीर्ष°, +छिद्-°, छिद्यमान,
 वा- १अ°, छिद्- १अ°, अग्नि°,
 अन्त्य°xx, छिम्दत्-, छिन्ति वा-१अ°,
 अन्त्य°xx, छिन्त्यत्- १अ°, +छिद्य,
 +छेचै, +छेचू- प्राण°, छेच- १अत्,°
 अवाच°xx, +छेच-क- १पाश°,
 छेच- १अ°, जिह्वा°, १गुण°xx,
 छेचम्, +छेचिद्- १गुण°, पुष्यो-

पगमदुम°, पलोपगमदुम°, वल्की-
 मुल्ललना°, +छेच, +छेच- १अ°,
 ✓छृद् वा°, २उद्, +चूर्न-
 सूतक°, +छदि- संकुल°, +छृण्ण-,
 +छृय, ✓छो अय°, आ°,
 +२छात्-१अ°, +छान-, +छाय

ज

१ज- ग°, च°xx; जकर- छि°,
 २ज- ✓जि (परि.) द, जगत्-
 सर्व°, जगती- अति°, अनु-
 प्दम्, आह्वरी°xx, जगत- अति°,
 उपरिष्टम्°xx, जिगर्दै., जय-
 न्यसू- ✓गच्छ (परि) द,
 जघन- १पृहु°, जाघनी- गुद°,
 जनिष्णु°, +जघन-रथल- १पीन°,
 जघन्य- कनिष्ठ°, जङ्घिड-
 पलात्, ज (ह >) हा°-
 करत्, जातु°, दीर्घ°xx, +जङ्-
 चरण- उच्छ्रुत्, +जङ्गो, हा-क्रेह-
 समस्ता°, २जङ्घि-✓ ज(परि) द,
 +जङ्गु-महत°, +जङ्गम-१शक°,
 ✓जट> जटा- १अत्, कम,
 १दण्ड°, वि°, १शिला°, सर्व°,
 १जटिल- आङ्गिरस°, चिन्तया
 न°xx, १जट- १अ°, अन्त्य°, जतु-
 १पृहु°, १पृ, श्लेषम्, ✓जन्
 अतु°, अग्नि°, अग्नि°, अग्निप्र°, आ°,
 उदा°, उ१°, नि°, परि°, प्र°, प्रति°,
 वि°, समु°, संप्र°, २ज, वा- अकाल°,
 अग्नि°, १अम्, १अएत्°xx,
 १अग्नि-°, १अन्- अथाविष्°,
 अन्त्य°, २अएत्°xx, जन्पद्- अग्नि-

a) माप । b) १ १०८४ यनि. सत्यवासकेन द । c) अग्नि वर्मणि च कृत् । d) पग्नि. १ १०८४ k
 द । e) १ १०८४ m द । f) शक इति पाठः । यनि शीव (तु सपा. वीपि) । g) पर्यरि य प्र ।
 h) माशपथेन दृ । i) वैव १ द । j) १ ११११ i द । k) पाठ १ यामेन इति शीवः (तु शीव प्रथ) ।
 l) १ १०८१ यनि पत्यवसिः द । m) अग्नि कृत् । n) १२> यनि. द. । o) १ १०९४ (१२>) यनि.
 द. । p) = देव विंश- । q) १ १०९० यनि. सत्यवासकेन द । r) कर्मापथेन दृ ।

पेचनीव°, आलुप°, उपावच°××,
 *जन-याद-शील- १अ°, १जन्य,
 न्या- वि२१°, गर्ग°, जनन- अयय°,
 १अध्र°××, जननी-अभिमेधा°, हीण-
 मेधा°, जनयत्-, *जनयित्से,
 *जनयि°यमाण- २जनय- १दतर°,
 जनय्(-क)- गन्धर्वाप्सरस्°, जनि-
 तोर(), जनित्र- वसिष्ठस्°, जनिव्य-
 माण, पा-, जनुम्- सुपा वाशु ३,
 १, ६३, जनु- १छद°, जन्मद्-
 अग्नि°, आत्मन्°××, *जन्म-प्रायक-
 तव धय°, जन्मर्ष- १अ°, ३जन्य,
 न्या°- कपेतोलून्°, *जन्म°-,
 *जा- अग्नि°, १अग्नि°, अग्निगो°××,
 १जात- -त आश्री ४, ६, ३१^f
 [°त, ता- १अ°, ४पय्°, अन्तर°××],
 *जात(-क)- प्रह°, जातर्षन्-
 शरुत°, जनुसगमन°××, जात-
 रूप- रजत°, *जात-वाह°-
 वास्य°, *जात-वेद- आदि°××,
 जातवेदस्- शक°, जातवेदसीप-
 आंगव°, जाति- १अ°, इनुचरी°,
 अन्वय°××, *जाति-कुल-धर्म-
 *जाति धर्म- देशधर्म°, जातिप्रश-
 कर-, *जातिप्रश-करण- १रुत°,
 २जात्य-अभिनिहित°, प्राक्दिलिष्ट°,
 २जान-, जायमान, ना- १अ°, जाया-
 आचार्य°, दन्त°, १पर°××, *जायो-
 (वा-त)पायिन्-शत°, *जायन्°-,
 *जायन्°, जायरी-वि मि°, *जनीं
 धर्मन्यां, *जनीमा जन्यां^f
 आश्री ८, ३, १९

>जप् क्तु°, अग्नि° परि° प्रति°, वि°

द्युप°, सम्°, *जंतव-, जप- १अ°,
 अपमर्षणश्क°××, *जप-व्यूह-
 सामद्- १अ°, जपहोम- नित्य°,
 पुष्टयपूष्°, जपादिक- अनाश्रुत°,
 *जप(प-र)शा-होम- नद्°, जपय्-,
 *जपती-, °ती- १अ°, *जपित-,
 जप, ता- गृहण°, जप्य- १कृत°,
 प्रत°, *जाप- २तल्ल°, ६हृत्°,
 *जापि(त>)ता- दत्त°, जाप्य-
 १अ°, दशमश्ल°, जपा- निम्ब°,
 *जपा दुष्य उच्यते°, >जम्,
 इम् अग्नि°, प्र°, जम्भ-
 पीडु°, *जम्भद्- १वृण°, जम्भन-
 कृमि°, किमि°, *जम्भनी- शयथ°
 >जम् प्र°, जमय्- > जमदग्नि-
 विस्वामित्र°, जामदग्न्य- १अ°,
 भार्गव°, २जामदग्न- १अ°, अत्रि-
 चतुर्भरि°, *जमित्-, जम्नु-
 पलाश°, *जम्बूक- १अन्व°,
 जयमान-, जयिष्यद्- >जि
 (परि) द्र, जरन्ती-, जरत-
 >ज्व(वयो) परि द्र., जरायु-
 ज्योतीत्°, *जर्जरिवा- पाठदु २,
 ६६, *जर्जरीक- पाठभो २, २, २०,
 जर्तिल- २स्वामाक°, जय- >ज्व
 (वयो)परि. द्र
 २जल- १अ°, अन्तद्°, २आदर्श°××,
 *जल गण- महिप°, *जल-चर-
 पक्षिन्- विविध°, *जल-छटा-
 पर्यन्मुक्त°, जलज- सर्व°, १जलद-
 तोयावजम्भिन्°, *जल दान- >
 २५ विण्डविर्षीय-आद्यगमोदय-
 २मयोक्°, जलविण्डदावादि-

वशाविधिदत्त°, *जल-सहय-
 अलभय°, जलाशय- शुद्ध°, *जली
 (ल-ओक>)स- १दृ०, जलूक-
 दूक°, >जल्य ३१°, जल्प-
 २स्वरण°, *जलिगुहम् जयय्-,
 जविन्- >जु (परि.) द्र, *जल्य-
 १अ°, जह- >हा (योगे) परि.
 द्र, *जहक- पाठभो २, २, ११
 जहत्- >ह(योगे)परि द्र, *जह्वां^f
 ध्व ४८, ११५°, निघ ४, १°, या
 ४, १, २३, जटु- गह्व°, १लोहित°
 जाटिकायन- गार्थ्य°, *जाता-
 फल- चन्दन°, जातु अग्नि°,
 १धेव°, जानान, ना- >शा(परि)
 द्र, *जानि- ४०°, गह°, जाभि
 (-क)- १अ°, जातु- अक्षुब्ध°,
 अशय°××, *जातु-चर- वहिष्°,
 *जातु करय- अशक्ति°, जातुदहन-
 नाभिदप्य°, जायाल- महत्°,
 जायालि- १गवर्धि°, जामातु-
 बुद्धिर्°, वि°
 जानि- १अ°, १देव° जाय- प्रय°,
 दार°, मनुष्य°, जाल- १अशु°,
 १अश्र°××, जाल (-क)- १मयु°,
 जालपाद- विपुतिपर°
 जायन्-, जायर्- >ज्य (परि) द्र
 >जि जाययेयु° आश्री ९, ९, ९
 [अप°, अग्नि°, अग्निमिर्°, अय°, धा°,
 २उद्°, तप°, मिर्°, परा°, परि°,
 प्र°, वि°, विमिद्°, सम्°, *ज-
 सता°, १जय, या- अययुपुम्°,
 अयम्°, शतम्°, क्षयम्°××, जयद्-,
 २जयन- सवार°, जयन्त-,

a) एष्य १सप्त टि द्र । b) कर्मणि अधिकरणे च कृत् । c) वैप १ द्र. । d) पृ २२०२ एष्य
 विज्ञान-> -त इति नेष्टम् (हु शौ ४, १, x) । e) अय. । f) सोवार्थ वैप २, १६६२ ए द्र । g) सोवार्थ वैप
 २, १६६२ ए द्र । h) १२-य- इति ज्ञान । i) = जम्बुक । j) वैप २, १३६५ ० द्र. । k) धर्मो वैप २,
 १२६५ p द्र । l) = गन्ध-वृक्ष-विशेष- [जायफल इति तथा] । m) पृ ११०५ मुद्रापितृपर प्रयोग २ यनि.
 श्लोष (हु सप्त आश्री १४, ३, २१ वीथी २६, ६. ३३) । n) कर्मणि कृत् ।

*जयमान- , जयिन्- , *जयिष्यत्- ,
 जयय- , *जि- घृतना०, युधा०,
 जिगिरत्- -वासम् वाश्री १, ३, ५
 १६०, रजिगीपत्- , जिगीपमाण- ,
 *जिगीपा- , *जिह्- अप्तु०, १३३०,
 १३३० गो*xx, *जित् पर- १३०,
 चित्त, ता- १३०, २५०, २४३०*xx,
 जिभाक्षी- , जिह्ति-जिष्य- ,
 *जिते (त ह) जिष्य- ४३०,
 जित्ति- पुरत्- , विष्- , सत्- ,
 *जिष्य, *जित्या- १वाच०,
 जित्या, जेतुम्- , *जेप- , जेष्यत्-
 -व्यन्तम् वाश्री १, ३, ४, ५०,
 *जेव्यमाण- , जिगमिष्यत्- ,
 जिगासमान- √राष्ट (परि)
 द, रजिगीपत् √गा (परि) द,
 जिघृक्षित- √घृ (परि)
 द, जिघ्रण- प्रम् √घ्रा (परि)
 द, जिघ्रासमान- , *सेम्या-
 √शा (परि) द, √जिन्- अभि०,
 प्र०, *जिचि(त >)वा- पर्येय०
 जिहीषमाण- √ह (परि) द
 जिह्य- १३०, जि(ह >) ह्य-
 १३०, अभि०, अर्*xx, जिह्(क)-
 स्य०, नि०, जिह्यामूल्- > लीद-
 अतुरारत्०, १गौरस० वण्य*xx
 *जीज- , जीति- १३०, *जीत- ,
 जीति- १३०, √जीप्य अति०,
 ३३०, आ०, उ०, प्र०, ६३०,
 १जीप्य- हृवि०, वाष्- , वर्म०,
 वावत्- , जीवपुत्र- प्रजावत्- ,
 २जीवर्- श्रीश०, १जीव०, नक्ष्य०,

लेपन०, लोपत्- १३०, जीवन-
 इमीद०, वृ- , तद्- , विस्मृत्- ,
 *जीवम् यावत्- , जीवसे, १जी
 (वक>) रिका'- वेश्य०, जीरिका
 √कृ०, जीरित- गो०, दुर्- , *जी-
 विन्- अम्बु०, आयुष- , *जीव्य, *जी
 यन्ति-^म- १सावर्णि०, *जीव्य
 राद्ररिष्ट- उदवि०, √जु, जु
 अर्पि०, आ०, प्र०, २जव- १वाच०,
 १३३०, ४हु०, १मन०, १वात्- ,
 २जवन- वी०, *जवत्- १मनस्- ,
 *जविन्- , जू- १३०, १३३०, विष्- ,
 *जूत्- १देव०, १वात्- , १जृति-
 १देव०, १वात्- , विष्- , जुम्बक-
 *काय अश्री २०, २२, ६०
 [क-४स०], √जुप् अगु०, अभि०,
 अम्बुद्- , आ०, उ०, प्र०, सप्- ,
 समुप- , *जुप्- १मनस्- , ४स०,
 जुड- १३०, इद्- , देवनादाश०,
 २वाङ्मण०, ४स०, जोद- १३०,
 जोषण- भूमि०, ४स०, सह०,
 *जोषस्- ४०, २जुहू- पवित्र०
 *जेजुहू- शुक्- , *जूर्ष- १३०
 √जुम् प्र०, √जू पाषा क्रवा
 पर वयोहान० [समव०], ज-
 अद्- , जग-आ०, *जगण धर्म०-
 १३०, जगत्- आहु०, पूर्वकार०,
 पु र०, २वत्- , जरती- अस्तु०,
 जुवती०, *जर-ती- १३०, *जर्द्-
 अजिन- दुर्- , जरदुपान्त-
 धरितम्- , जर्ज- १३०, *जर्ज-
 आ०, १परा- पाय ३, १०४ [स-

१३०, जग्मत्-], *जराभोग- वि०,
 *जर्ष- १३०, जिधि- अभात्- ,
 जीर्ष- १३०, *जीर्ष रत्न-वासत्-
 मलिनवसन०, *जुर्- अभा०
 जैमिनि- यस्क०
 √जा अतिवि०, अगु०, अ०, अमिदि०,
 अमिसम्- , अम्बु०, अ०, आ०,
 उ०, निर्- , परि०, प्र०, प्रति०,
 प्रत्यम्बु०, वि०, संवि०, सम्- ,
 समम्बु०, समा०, २जज्ञान- ,
 *जज्ञि- , जानत्- , जानवी- ,
 *जानात्, ना- १३०, *जिज्ञास-
 मान- , जिज्ञासा वाचन०, २धर्म०,
 सर्वभूत०, *जिज्ञासे (ञ >)
 म्या- , ज्ञ, ज्ञा- १३०, अर्ज०,
 अर्ष*xx, *ज्यन- , *ज्यस- ,
 *ज्यया, *ज्य्य, *ज्य्यमान- ,
 *ज्ञा- १३३०, ज्ञात्, ता- १३०,
 यथा०, सन्धक्- , ज्ञाति- १३०,
 ज्ञावाय०, विष्- , वधू- , *ज्ञवि-
 घना(न-अ)ख्या- १३०, ज्ञातुम्,
 ज्ञात्- , ज्ञात्- १३३०, ज्ञातिसान०,
 ज्ञावा १३०, ज्ञान- १३०,
 अधिकार*xx, *ज्ञान मति०- ति
 नादि १, ६, ३, *ज्ञाना(न-अ)र्ष-
 १३०, *ज्ञानो(न-उ)नदेष्ट- शर्- ,
 ज्ञापक- १मज्ञा०, *ज्ञापयत्- ,
 ज्ञापित- , *ज्ञाप्य, *ज्ञाय, ज्ञाप-
 मान- १३०, *ज्ञापिन्- , ज्ञेप, वा-
 १३०, दुर्- , दुर्वि०, वाच०, ह्रि-
 ०असित०, ऊर्ष०, मल०, १३३०
 ज्यन्- उ०, परि०, √ज्या वि०,

a) ३१ १ द । b) सपा वाश्री १, ३, ४, ५ लैव्यन्तम् इति पाठे । c) पृ १११३ यनि. सख्यासंकेतः
 द । d) अर्षि इति Old होष । e) पृ १११४ यनि सख्यासंकेतः द । f) वस. । g) पृ १११४
 यनि द । h) पृ १११० यनि सख्यासंकेत द । i) पृ १११६ यनि सख्यासंकेत द । j) पृ १११६ यनि सख्यासंकेत द ।
 k) पृ १११६ वा ४ १, ०५ > वा १, ४, ०५ द । l) वग । m) सपा वीथीय ४१० ० जीरति- इति पाठे ।
 n) पृ ११२० आश्री २९, २३, ६ > यनि द । o) = अमि शिषा- । p) √मृ ६-वेरे, √पृ हाक्यो इति माण्डा.
 वा । q) वग. । r) मये वरणे म प्र, वि, ५२े विद् प्र. । s) सग वा यत् वा ।

*ज्य- धातुम्, प्रदान्, *ज्यान- १अ°, ज्यानि- १अ°, पुत्र°, यन्त्रु°, सर्व°, सर्वरत्°

ज्या- क्वधि°, आशि°, २३द्°, कृष्णो- र्णा°, १नुम्°, प्र°, भात°, सुख°, ४व°, *ज्या पात- दुर्गा°, ज्यामौर्वी- मौर्जी°, *ज्या-यादि-त्र-वाल-नृत्त- गीत-शील- बुद्धाशिन्°

ज्यायम्° दृ°, ज्यायस्- १अ°, १ए°°, वण°, √ज्युत् अण°, ज्योति- प्र°, ज्योतिस्- अग्नि°, अन्त्र°××, १ज्योतिष- वात्-१न°, प्राद्°, *ज्योतिषोद्-उपसर्ग- उक्तापात°, *ज्योतिष् (क)- विकृत°, विक्रान्त°, विरत°, १ज्योति- षोम- उक्तरत्नन्त°, त्रिष्टोम°, पूर्व- वसन्त°, ज्योतिष्मती- उपरिह्रात°, पुरउपरिह्रात°××, *उग्रोथ, ज्येष्ठ, घ्रा- पाग ५, १, १२४° [घ, घा- अग्नि°, अनु°, कन्वद्°, इन्°××], ज्यैष्ठिनय- १अ°, ज्येष्ठ- पा ५, १, १२४° [धय-१युत्, यथा°, वण°] ज्येष्ठभ्रातृ- राजन्°, ज्येष्ठसामन्- > *ज्येष्ठसामिक°, ज्येष्ठ सामिक- २शोदान°, ज्येष्ठाना (वायव्यतोम-) शाश्वी १४, ५२, १°

√ज्यल् अण°, अग्नि°, अम्बुद्°, अत्र°, १३द्°, उण°, प्र°, सम्°, उरल- उरलल्-, उरलन- अग्नि°, १अनति°, १अल°××, ज्यलवल्-, ज्यलिङ्-, *ज्यलप, ज्यल, ला- शत्रु°, जाता°, ज्यासुरा°××, *ज्यल निकट- २संक्षिप्त°, *ज्यलप, *ज्यलपमान-

झ

√झल् पाषा भ्या पर सघाते, *√झम् वाधा भ्या पर अर्ने, झर्झर°-> *श सं- *रिक्-१ा४, ४, ५६, *झर्झरीक- पाठना४, २०, *झर्झायन- -या औशु ३२ १ *झर्झरी°-> *री-युष्- -त् नैष ३, १४, ७, झल्लरी हस्त- स्त वैष ३, १४, १०, √झप् पाषा भ्या पर हिंसायाम्, उभ आदानसवरणयो°, *झप- १गोषा°, *√झ् पाषा दिवा, क्था° पर ज्योहानी, √भ्युम् ज्ञ-४° व°, १अ°, जकार- न शेषि ३०९ -रम् तिभा ५, २४, -२ ज्ञा ४, १८, *जकार(र-अ)न- -स्तम् भाशि ५९, *ज श-सं-ि- -पिम् भाशि २४१

ञ-ण

ट- १३°, व°, न°, १८°, टकार- १आवात्, टकारयो- पकार°, टिट्ठिम- क्वाविड°, १काक°, निजुवार°, ३४४°, विजुविपर°,

*टिरिटिरा- वण°
ठ> *ठ सज्ज- -णम् वाशि २, ३७
ड- ए°, √डी, *डीयमान- २उद्°, *डुण्डुभ- नृपण°, सुण°, *डेरी [री°]या°- ३वाचक°
ढ, ढ्ह- ट°, ङ°
१ण-ड°, णार- टणार°, *ण- र- दीर्घ°, विधि°, पत्न°, *ण- भूत- तम् उद् ५, ४, *२ण- -य वेज्जो १८

त

त- लृ°, तुर्ण°××, तकार- द्वि°, तवर्ग- १ल°, तपर- १क°, तादि- ध-यस्त°, √तस् कि°, परि°, *तंस्, √तक् परि°, *तकन-, *तकम्प- परि°, तक- १नख°, धृत्°, इत्°, *तको(क-उ)रक- विष्णार°
√तक्ष अणु°, अण°, निम्°, प्र°, वि°, सम्°, *तक्ष- वृट°, १तत्- उत्तर°, उण°, १एक°, तक्षक- -क आपम २, १७, १०°, तक्षशिला- गदि°, तक्षण- परि- मार्जन°, भरमपरिमार्जन°, तक्षन्- कर्त्तव्य°, १स°, *तक्ष- कीट° प्राग°, *तक्षुल्- सुधद्°, तट- १अ°, *तथि-, तथर- मन शिला°, धीवेडक°, √तच्च य-ना°, अम्भा°, आ°, उण°, लया°, *तथ-, *तथय-, *तथ्य, *तथन-, तट- २उद्°, मदी°, १वर्ग°, सन°, दुर्गोपयानदी°

√जि > *जयस्- -वाशि आफली ५, ६, ३ [य १३४, ११३], *ज(य>)वी- १३३°, *जि- १३६°, √ज्यर् सम्°, ज्वर- छदि°, विण°, सतव°, *ज्वरि- १अ°, *ज्यादि-

a) कौर कुट्ट । b) वैप ११८९० ७३ । c) वृ पागम । d) =ज्यश्रमिन् । कृ प्र इति ततो विभेद । e) वृ ११२९ सत्य ज्येष्ठानाम् इति वेष्टम् । f) वैप २ ३ । g) धातुपरो निर्देश । h) =वाय विधाय । i) व्यप । j) वृ ११२९ यानि द । k) =मत्स्य विभेद । l) वृ २८९० १३ । m) वृ १०९२ ३६ । n) नाप (जन्तु-भेद-) । o) दिथ पाठ । p) =क-न- सूरिका- इति माध्यम् । q) वृ ११३३ यानि सव्यासवेत्त द । r) =२धदण [नक्षत्र विभेद-] । s) वैप ६, ११३३ । द ।

तटाक- देवगृह^०, नदी^०, √तद्
 श्व^०, वाङ्म-१अ^०, १दग^०, *ता-
 डि- रती^०, तडाङ्ग- उदधान^०,
 वृ^०, नदी^०, *त^०xx, तडित्-
 वनक^०, गोक्षीर^०, तण्डित्-
 संकृति^०, तण्डुल- २वसत^०,
 वावामार्ग^०xx, *तण्डुला (त आ)
 वचन-अभिप्रयण^०, *तण्डुलीयक-
 पिप्पली^०, ततामह- प्र^०, तस्थ-
 श्व^०, २धर्म^०xx, *तत्त-गोचर-
 समाह^०, *तत्ता(त-अ)धे- २वेद^०
 तत्ति- √तन् (परि) द

तद्-> २त वा-तम् शाण २, १८, ३^a,
 तै आपथी १३, २१, ३१^b, माथी २,
 ५, ४, ३८^c, वर २एकाक्षर^०, कथा^०
 गवा^०, तथायु (क>)का- -का^०
 आपथ २, १२, ४, शीघ्र १, ११, १७,
 -का^० द्वि २, ४, ३९, *तथा-
 योनि- १अ^०, *तथा रतोम^०-म
 छम् ३, १५: २, *तथो (था-उ)
 वसि- १अ^०, *तथा-देस्ता- ४अ^०,
 २समान^०, तद्- १अ^०, एतद्^०, तद्^०,
 तु^०, युग्मद्^०, १तत्तद्- १अ^०,
 तत्तैश-> ताळीबय-गत^०, हेतु^०,
 त-छेय-> *तच्छेया(य आ)घार-
 सामिधेनी^०, *तच्छेयात- पतित^०,
 तत्ताति-> *तोथ^०- १अ^०, तत्तकर्म-
 खम् २वा ५२, १४, ५^c, २तत्पर-
 पोषणाच्छादन^०, मद्रत्तावा^०, त्थार्थ-

साधन^०, *तत्-परायण- शार्दूल^०,
 तत्पुत्र- *तत्-पुत्र श्त्री- आचार्य^०,
 तत्पुत्र- वाचय^०, श्वयदीभाव^०,
 इन्द्र^०, *तत्-पुरोहित- क्षेप २^०,
 तत्पुत्र- १अ^०, तत्पुत्र- १अ^०,
 द्वि ८, ६, तत्पुत्र- १अ^०, १तत्पु-
 धानरथ- पुरोवाह^०, *तत्-प्रयोध-
 धाय श्वे ७, ५५, तत्पुत्र-
 दात् वाध १५, १९, *तत् सविद्-
 विदम् विध ५, १६८, तत्-सत्कार-
 र मीद् ३, ४, १५^b [२- १अ^०],
 तत्समुदाय- १. शुभा ८, ४४, *तत्-
 साधुकारिन्- तच्छील^०, तत्साम्य-
 म्यम् विध ८४, ३, तत्स्थ- गतुष्य^०,
 *तत् सृष्टि- पतित^०, *तत् स्वर्गा-
 (गं-अ) धे- धेन गौवि १, १, ४,
 तन्त्व- १अ^०, तदादि^०, तदर्थ- १अ^०,
 तदर्थ- उरपत^०, कर्मन्^०, विधि-
 क्त्वा^०, *तद्-अवधि- अनपर^०, *तद्-
 अवध- श्लाघा^०, तदाद्य- १अ^०,
 तदिदासीय कपाशुभीय^०, १तद्गुण-
 १अ^०, तद्गर्म- १अ^०, तच्छील^०,
 तद्विस्त-> तद्वि शब्द- २शब्द
 मीद् ६, ४, २१, २तद्वि- १अ^०,
 १अ^०, १द^०, समास^०, सर्वनामन्^०,
 *तद्वि विधि- १पाठु^०, तद्वि-
 मातृ^०, तत्पुत्रपुत्र समवाचरि-
 सद्^०, तत्पुत्र- प्रभूत^०, तद्वि-
 द्यत्सत्कार^०, १तद्गुण-> *ताद्गुण-

>ताद्गुण(व्य-अ)तिदेश- १अ^०,
 २तद्गुण- १अ^०, तद्गुण-> १वृ-
 चमत्- -सम् काथी १०, ९, ३०,
 तद्विकार- १अ^०, तद्विधान- नेत
 वैष ३, १२, ८, *तद् विभूति^०-
 तयः श्वत्र १, २, १२, १८, तद्-
 वृत्ति- स्तेन^०, *तद् व्याख्या-
 व्या काशु ७, २७, तद्विमित-
 १अ^०, तद्विमुक्ति- भोजन^०, तन्व्य
 द- १अ^०, *तद्-मन्त्रकृत्- भो-
 हन्^०, *तद्-मान^०-> तन्मानि-
 कर्मनामन्^०, तावत्- जिष्^०, द्वि^०,
 १स, सा- तैसाः कौश २, ८,
 ९^a, द्वि १, ४, ३^b,
 *तद्गुणस्वन्त^० वैधी ८: ३,
 *तद्विद्याचन^० शाश्री १५, २७,
 १, √तन्^० अनु^०, अनुसन्^०,
 अन्वा^०, अप^०, अग्निभि^०, अग्ना^०,
 अव^०, आ^०, आवि^०, २तद्^०, उगसम्^०,
 नि^०, निष्^०, परि^०, दशो^०, प्र^०,
 वि^०, सम्^०, तत्-पुरि (>री^०),
 ४अ^०, २तत्- > *तत्ति, तत्तमात्-
 वि^०, तत्ति- कर्मन्^०, यज्ञ^०, *तत्ति,
 शी- तत्त्व, तत्त्व- तत्त्व-
 शब्द^०, २तत्त्व- कर्मन्^०, तत्त्वनि ३^०,
 *तत्त्वय- पा ५, १, १२२, तत्त्वमन्^०-
 म शीश्री २५, ३२ ८, वैधी १०,
 १७ ६, १९ ५, द्विशी ७, ४, ५^a,
 ५, ११^b, ३तत्त्व, न- न्यम् आशी

d) स्या कौश २, ८, ९ स इति पाठे । e) पाठे. वैष १, १५०: ३] इ । c) अत्र सरथा नेष्ट ।
 d) परस्पर पति । e) मल्लो वत । f) वृ ११४० तन्वाशीय इति नेष्टम् । g) यनि स्थल शोध ।
 h) सत्कार इति जीत् । i) वृ ११५० वनि शोध । j) =फल चमस- (तु. मीत् ३, ५, ४८) । k) त्रिप ।
 मस । l) पण । m) पाठे वैष १ विभक्त्यापि शी १२, २४, ६ टि म । n) पाठ १ तद्गुण
 (=त्यया तु-प यथा श्यातया) बन्धे इति शोध (तु [प्रशत] म्) । o) १व(व>त्) (√ वत् 'मुवि')
 सेटि प्रयु) सत् (तु स्या ऐमा ७, १८) इति, विवाचन- (विभक्तु = उपदेश) > न इति च प्रपञ्चदहयपर
 शोध (तु तत्पुत्रं सत् ऐमा] श्वयम द्वि, वैद्व द्व. १म पदम् = तद्- [सना.] इति, M. Hebrandt य
 Greiter य १२२ निवत्त्व- > न दिवरात्] इत्येव हत्या पूष सद्- इति शोध इति^१) । p) पा ६, १, ११६
 पराशर द । q) =शरीराङ्ग-विशेष- । r) सत् इति पाठ १ यनि. शोधः (तु वैधी.) ।

३, ११, ११° [°न्- अत्रि°, अवतत°, अशीत°xx], तन्नूपात्- १अ°, तन्नूपात्- > तान्- > तान्- नपरिन्- ४स°, तन्नुष्ट°- ६न्- पृष्ठ°- १वत्स°, *तन्ती- यञ- आयोजन°, १०न्- उद°, कर्मास°, कौतुक°xx, तान्ताव- १अ°, तैजस°°, धान्य°°, निस्°, तन्नुमती- इत्वादि°, तन्नुषाय- क्रमिद्वास्त°, शैल्य°, १तन्- १अ°, इमन्त°, अन्त- र°xx, तन्मत्तर- ४न्- १°, २तन्त्री- २पि- शीतवीणा°, शत°, २तन्त्री- नाडी°, १व स°°, *तन्व- बहिसु°, तन्वद्-, तन्वान, ना- तान- कर्ष°, *तानक- २तन्नु- मनु°, तन्त्री- संवाप°

√तप् अतु°, अग्नि°, अमिप्र°, अय°, आ°, २तद्°, उप°, नि°, निस्°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रत्वा°, वि°, समु°, सप्र°, १तप- द्विपम्°, परम्°, ललाटम्°, गजुम्°, तपद्-, १तपन-, *तपनी- श्शानाव्य°, उपनीय- पञ्चल°, १तपस् अ१°, अ२°°, दीक्षा°xx, तपसो- १हुमार°, तपश्चिद्-> तपश्चित- कौष्टवाग्नि°, ध्रुलुक्°, दादशाद्°, गहन°, तपस्विन्- १अ°, *तपो- वक- दिव्यन° म°, *तपस्व- *तप- हनुम्°, तप हा- १अ°, अग्नि°, भा१°, वदि°, पु°, *तप्य, तप्यमाण, ना-, वाप- पाग ६, १, १५६, तपन- वा२°, *तापिन्-, *ताप्य, २तपस्, तपस्व- १द्विचि°

√तप् अत°, अा° उपा°, नि°, सम- रज्जु°, *तमेर°- १अ°, *तम्य,

*ताम्य, तमस्- अज्ञान°, १ओनस्°, दीर्घ°, रज्जु°, तमस (-क°)मा- अणुत्, तमिस्-> तामिस्- १अन्ध°, तमस- २अन्ध°, अय°, रम्°, तमास माप्यति° वाप्री ३, ४, १, ४३, *३तम्बल°-> ताम्य(त)°ली- १गुञ्ज°, तरजु- १अन्ध°, तर(त >)ता- √तु(परि)द्, (तरस्- मेरु°°, तरसपुरोद्यम- च्याल्लुत्) तरीतु-, तरीप- √तु(परि)द्. तरीप- निस्°, तर- औदुम्बर°, १शमी°, २वाप्य°, तरण- १अ°, कुमारी°, १पुत्र°, १दन्°, *तरम- क- १कुठ°, १दग्°, √तर्क > *१तर्क- ३.५°, २तर्क्य- √तर् (परि) द, तर्जनी- अङ्गुष्ठ°, २तर्दन- √तर् (परि) द, तर्प-, तर्प्य √तर् (परि) द, तर्मन्- √तु(परि) द, *तर्ह- अत° २तल- अङ्गुली°, अतल°, चनि- शिका°xx, तलाशा- ३चित्°, तल्प- उपा°, गुह°, १वर°xx, तवी त्यत्- √तु(परि) द, तधि- √तस(परि) द, √तस् उपा°, रि°, *तस्व-, तस्कर- वासुद् ६, ३[२- १अ°, अमिदस°xx] *ताजद्भङ्ग- १अधरत्न°, ता- दित- √तर्(परि) द, ताण्ड- व- ३द्वा°, *तापिच्छ- कालीर° तापिन्-, ताम्य √तर्(परि) द, ताम्बूल- अयुर्, ताम्य √तम् (परि) द, ताम्र- अति°, १अयम्°, अरज्जु°xx, *ताम्र लिप्त- मादय°

√ताप्य > *तापन- इति°, शैतार- १उपाशु°, मन्द्र°, ५तार, रा- उल्का°, १एक°, गो°xx, *वारा- ग्रह-गण- १द्वयाम°, शैतार- √तु(परि) द, तारका- उपा°, अन्त्र°, नक्षत्र°xx, तारकायण- विक्रि°, शैतार्क्य- गह्वेन्द्र°, तार्प्य- पाण्डर°, तार्थ, तार्थ- √तु(परि) द, *ताष्टीघ- नपुस°

शैताल- १काय°, तालद्वन्द- ४त°

शैताल- द्वि°, यावत्°, धनाल- ज्या°, गुद्°, शिल्प°, *तालन- मुन°, तालु- ३इक्ष°, बरड°, हृद्°, तालप- १औरस°, कन्ठा°, जिह्वा°, √तिज् प्रति°, शिक- अभातक°, १तीक्ष्ण- १अ°, अति°, अन्, १दुष्ट°, सर्व°, *वीक्ष्णा (क्षण-व)रेकिरण- ५१°, तेज- सुपत्ति°, १तेजनी- १अ२५°, तेजस्- अति°, अग्निष्ठा°, आत°xx, वैजस- १अ°, महत्°, तेजस्काम- ग्रामकाम°, भूतिग्राम°, तितीर्षु- √तु(परि) द, शैतितिरि- रज्जु°, तिथि- कतु°, अमर्, नक्षत्र°, पर्वन्°, तिन्तुका- वन्धु°

तिमिर- इच्छनीहार°, वि°, ति- रत्- √तु(परि) द, तिरस्- > तिमि(रस)श्च > तिमिच्, च्- १अ°, कर्मा°, ५रवात्°, पुर- सात्, *तिर्म्य- नात-सेवा- गप- स्थानासन°, तेरेव्यजन- वैशत°

√तिल् २°, तिल- १अ°, इनु°, अल्प°xx, पैर- अयु१°, आर्- दधि°xx, *तैल- १प२डी(७४-डी)प२

a) शोभायं पृ ११५६ ० द । b) पृ ११५७ m "पट्ट विशेष" इति शेष द । c) = ३तनु । d) वैप ३ द । e) कर्तारि इद । f) पृ ५७- ७१ इति नेष्टम् । g) = १तप- । h) कर्म व्यु ४ ? । i) पृ ११०१ p द । j) < √तल् । k) = ३स विकेप- । l) = रताल- । m) पृ ११७० चनि.

सख्यायैकेत द ।

वैप४-२-१८

भेषज-रिया- दमन^०, वैशिक-
 अभिप्रस^०, श्राविन्^०, तिलर^०-
 *तिल-रुच ग-धो (न्य १३) दक-
 *तिल-गन्ध- *तिल गन्धो (न्य-
 १३) दक- ४ ग^०, *तिल-चूर्ण- १ व-
 च^०, तिलमिश्र- १ अ^०, तिलाक्षय-
 *तिला (ए-अ) क्षय-परिप- ४ स^०,
 *शैतिलक^०- २ अर^०, तिल्य^०-
 निम्ब^०, वन्डू^०, तिल्य- न्यासे
 प^०, पाठा^०, विभोदक^०, विमीतर^०
 तिल्य^०-, तैप- ३ व^०, *शैतिल्य-
 पा ३, ३४, तीर- १ रू^०, शोम
 म्बी^०, तद^०xx, तीररूपोत्पाद-
 द्रव्य^०, तीर्थ- १ अ^०, अभि^०xx, *ती-
 र्थ (अ) नुसारिन्- ३ अ^०, *ती-
 र्थार्थ (अ) नुसारिन्- ३ अ^०, *तीर्थ-
 १ ए^०, तीर्थ √तु (परि) द
 तीर- > शोमसुत- > दुपयदो
 (६-३)^०, √तु श्म^०, तय- >
 तबीयम्- > तयस- १ अ^०,
 तयस^०- ३^०, १ स^०, *शोम-
 तु यद^०, *तु^०- वो पा ८, ४, ६०
 ['तु- छ'], तुम्-^०, तुम्न^०-
 तु^०, *तुषार- २ अ^०, तुक्ष-
 १ अ^०, *तुष, माक्षेण^०, √तुञ्
 नि^०, तुष्ट- अभि^०, १ अ^०,
 १ अ^०xx, तुय- य द्राश्री ४
 ३, ११^०, √तुद् अत^०, मा^०
 २३^० नि^० २ वि^० म्पु^०, *तुद्-
 १ तुद्- १ अ^०, तिलम्^०, विष्णु^०,
 *तुद्- १ अ^०, तुष, आ- तिल
 माप^०, तोद्- वा^०, *तोदिन्- १ अ-

सह^०, श्राश्री^०, हड्डल^०, शतुन्द-अपग^०,
 चल^०, *तुम्पु^०-पलाश^०, तुमुल-
 १ देव^०, √तुम्पु प्र^०, √तुद्
 (= √ ८) प्रति, प्र^०, तुद्- १ अ^०,
 २ ग^०, सप^०, १ तुद्- > तुग्-
 १ नर^०, *तुग् द्विप- विनिहत^०,
 तुग्भवह-> *तौग्भवस- १ अ^०,
 *तुर्ध- १ अ^०, तुर्ध- १ अ^०,
 *तुर्ध- १ अ^०, *तुर्धि-^०, *तुर्ध-
 २ ग^०, २ तुर्- यद्, तीर- शर्पद्वत^०
 *तुर्ध- (> तौस्व- पा) पा
 ४, ४, १६२, √तुल् स^०, तुला-
 १ अ^०, छत^०, तिलकैल^०, *तुला-
 पुमात्-^०, तुलामाग- > *तुला-
 मान प्रतिमान-व्यवहार- वृद्ध^०,
 *तुलो(वा-उ)पमा- १ अ^०
 तुल्य, ल्या- १ अ^०, अग्निप्रययन^०,
 आरमन्^०xx, तुल्यत्व- २ वेद^०,
 *तुल्य(त्व-आख्या)> त्व- कुर्य^०,
 तुल्यार्थ- १ अ^०, तुवि-> तुवि
 जात-मिन्^०, √तुद्, तोय- नि^०
 √तुप् उय^०, परि^०, सम्^०, तुपित-
 मह^०, तुष्ट- १ अ^०, १ अ^०, स्वरा^०,
 तुष्टि- *तोप- यकी^०, *तोप्य,
 तुप-असि^०, आर्धपवि^०, २३ द^०,
 वेराश^०xx, तुपके मन्^०-
 तुपर- > *तुपर-स्व-श्रीतानिल^०
 तुष- > तुषी- चर्म^०, तुषय-
 बीज^० १ रू^०, तुषर- १ अ^०,
 १ अ^०, १ रूपा^०, शूर्य^०- प्रागिन्^०,
 १ रू^०, सर्व^०, *तुष्यं शोपम-
 भद्रश्रीरूपन^०, तुषा^०, तुष-म^०

√तु (परि) द, √तुर्ध,
 *तुर्ध- ५^०, तुल- शीर^०, उद^०,
 प्रा^०, उद^०xx, तूप- १ अ^०,
 दामन्^०, √तुह, *तुदा (ए >)
 पा- वि^०, *√तुम् (= √ कुव छिन्-
 ने), २ तय^०- निस्^०, तुह->
 तार्क्ष्याण-> *शी- पा ४, १, १८
 तुष्टण- १ अ^०, अम्पार^०, २ अ^०,
 अम्प^०xx, तुष्टणम्प^०, तुष्ट-
 विन्दु- २ ततु^०, *तुष्टण-सूत-श्री^०,
 तुष्ट स^०, √तुद् अति^०, अभि^०,
 अ^०, आ^०, उय^०, नि^०, परि^०, प्र^०,
 प्रत्या^०, वि^०, सम्^०, तदेत (वरा)-
 वरुन्- नवन्^०, ३ युग^०, अत^०,
 *तुष्ण, ण्या- १ व^०, *तुदस-
 *तुष, √तुप्, म्प, शर्पवन्तु
 आत्रण २, ११, २ १०^० [अभि^०,
 ५ र^०, प्रति^०, सम्^०] *तुर्ध- दुग्^०,
 तर्धेण- १ उदक^०, शो^०xx, तर्धन्ती-
 तर्धेण- १ अ^०, *तर्ध, तुर्ध- १ अ^०,
 १ तुह- गभे^०, वेदे^०, निर^०, वृत्ति-
 १ अ^०, वाक्^०, शो^०, वेत^०, अक्षरेवर्षि
 ति^०, यथा^०, *तुष्ण, तुष्ण- १ उदक^०
 √तुष् वि^०, *तुष्णा, वृषित- १ अ^०,
 तुष्णा- छुप्^०, *तुष्टि-, *तुष्ण-
 १ अ^०, √तु अति^०, अतुसम्^० अवे^०,
 आ^०, २ उद^०, उय^०, नि^०, निन्^०,
 प्र^०, वि^०, म्पुर्^०, सम्^०, २ तर, श-
 आकर^०, हुत^०, तुष्ण- नदी^०,
 वाहु^०, मु^०, तर^०, *तर (त >)
 व^०-तरिव्य^०, २ तरी^०, तारिक-
 अगिरस्त^०, *तरीतु, *तरीप- दुग्^०,

a) पा उय = अर १ ११०५ क नेहम् । b) = टा-विपिप । c) १ ११०५ यनि : टासरा
 द । d) १ ११०५ म्पु(र-उ) > यनि द । e) वेप १ द । f) = त-वर्ध- । g) = तुह- । h) पाये
 १ २०१० । इ । i) शीरि १ र । j) मायाय १ र । k) पा मोषने वृत्ति इति पागम । l) तु पासा ।
 m) १ ११०८ तुला तुष्ण-> यनि द । n) १ ११०९ म-> यनि द । o) १ ११०४ यनि मायायका
 १ । p) १ ११०५ म-> यनि द । q) १ ११०५ ग-> यनि द । r) पाठ १ प्रवरणन तर्धणु
 १ (१ गोव शय ५५ । s) क्याय १ र । t) = शीर- ।

वर्मन्- तु°, +इतर-°, +तारज-
 रोक्°, +वारिन-°, +तारि(न>)
 पी-, +तार्थ, +तार्थ- > तार्थ-
 तुष्य प्राण्य वक्षया (इय आ) नाम्य
 सम समित समित- नेषु पा ४४,
 ९१, +तिदी-°, +तिर-°, +तिर-°,
 +तिरम्, तीर्ण-°, +तीर्थ, रतेजनी-
 नीम् वाधूधी ३, १६ ३, १९
 ५, कौष्ट २, ७, २३^{३०}, तेदनि-
 १भर-°, +तेदनी-°, तोक- ४५°
 १भूरि°, तोकमन्- वम हिथी १३,
 ५, २२ [०- १महु], तोदिन्-
 √तुद् (परि) द्र, तोय- १४दं°,
 वापाय°, १कुश-°××, तोरण-
 तिमिर°, भञ्ज°, फलाका°, प्राकार°,
 प्रासाद°, तोप-, गोप्य √तुष्
 (परि) द्र, तोखल- जोसल°, रत्त-
 √दा (दाने) परि द्र रत्त, रत्ता-,
 त्ति-, रत्ता √दो (अन्) परि द्र
 √रयञ् परि°, सम्°, त्यक्-,
 +त्यक्ता (च आ) त्मन्- बुगडा
 शिन-°, त्यक्त्व- +त्यक्त्-, +त्यक्-
 रत्न°, रत्नज- १अ°, +त्यक्ता-
 दुष्°, +त्यक्त्व, त्याग- रत्न°,
 रदक्षिणा-°××, त्यागिन- १अ°,
 ज्ञानोन्नापत्ति-°××, त्याज्य, ज्या-
 १अ°, त्यद्- > त्यदादि- त्रि°,
 त्यदात्रिविदि- आवदि°, इत्येवे
 +त्यात्मक- (> °कायन- पा)
 पाग ४, १९९, ब्र- √त्रे (परि)
 द्र, √ब्रष्, +ब्रपण- अ°,
 +ब्रप- पा ३, ३, १०४, +ब्रविष्णु-

श्त्रपु- आरनाल°, ताम्, श्लेष्मन्°,
 तील°, सीसन°, √ब्रस्त्र भा°, अभि°,
 अन्°, परा°, वि°, ब्रुद्°, सम्°,
 +ब्रस्व-°, +ब्रसन- १हरितन्°,
 +ब्रस्व-, ब्रस्व- १अ°, +ब्रस-
 +ब्रामभव-, +ब्राम्, ब्रस्वदस्यु-
 प्यरा°, ब्रामन्- √त्रे (परि) द्र
 त्रि- १अहत्°, १एक°, वत्-°××,
 तु, त्रिष- १आय°, आदिना-°××,
 तुचपार्थिवेपाद्-°, +तुष वज्रम्
 १अ°, तुचैकर्थ- क्तादिष्ट°,
 तुषीय, पा- अतिशय°, अन्वर्थ°,
 अरण्येनुवाक्य-°××, +तुषीय-देश-,
 +वमात्र- वि°, तुषीवदेश- पुश्य°,
 १तुषीयसवन- गवत्री°, जगत्°,
 त्रिष्टम्°, प्रात सवन°, ब्रय- अभि°,
 अतुल°, अवरथा-°××, त्रयस->
 त्रयस्त्रिंशत्- द्वि°, महाशान्ति°,
 त्रयस्त्रिंश- श १ बौधो १६, ४
 १३, द्विथो १६, ३, ३१, -शम्
 आ१श्री २१, ७ १२ [१- एकविंश°,
 त्रिणन°, त्रिष्टम्°, द्वात्रिंश°, स्तोम°]
 +त्रयस्त्रिंशता (श अ) त- सादक°,
 त्रयोदश- अर्ध°, त्रयोदश-
 द्वादश°, तदन्°, पान्नीसत्, बाहरे-
 त्व°, त्रयोदशी- अपामार्ग°, १दृष्ण°,
 मपा°, १मदन°, त्रयोदशाक्षर-
 एकादशाक्षर°, त्रयोविंशति->
 +विश-त्रयोदश°, +त्रयोविंशती- ए-
 किनी°, त्रिंशत्- १अष्ट°, क्ता°,
 १ए-°×× त्रिंश- निन्°, त्रिंशति-
 श्वा°, १एम्°, त्रिंशक- १एव°, पूर्व°,

+त्रिकै(न-ए)क- एअजिन°, त्रिकुटु-
 कुन्देम°, महत्°, त्रिकुम्- चतु-
 ष्ठेम°, महत्°, सम्दृ°, त्रिकुम्-
 उपरिष्ठात्°, त्रिष्णि-> °निन्-
 १अ°, त्रिगुण- द्विगुण°, त्रिमहण-
 १था°, त्रिचतुर्- तुभ्यं पा ६,
 १, १०९, त्रिणव- एकविंश°, चतु-
 विंश°, त्रयत्-°, सप्तदश°, त्रिणघन-
 १अदिष्ट°, अथपारित°, त्रिवय-
 रत्तक्ष°, वस्तर°, +त्रि-ख- उःपात°,
 त्रिषा पा ५३, ४५, +त्रि-व- -अम्
 पा ५३, ४५, शायी २, १०, ५,
 काशी ९ १४, ८, २०, ४, २८,
 थापथी, त्रिषद्-> °दा- द्विपदा°,
 त्रिषच्छम् () शायी ११, १८,
 १४, १, त्रिषद्- एकम्°, +त्रि
 विस्त-> रतिविस्त-, त्रिवैरितक-
 पा ५, १, ३१, १, त्रिभाग-> त्रिभा-
 गोना- रत्तात्°, रत्रिमास->
 +त्रैमास्य- अर्धमास°, त्रिस-
 १अद्°, आ°, वृत्तरन्दि°, गर्ग°,
 वै, वै १४°, ब्रुष्टि°, पञ्चान, सर्व-
 वेद°, त्रैसात्रिक-, +त्रिसार-यानिन्-
 १अ°, त्रिवर्ष- १अ°, जन्°, त्रिवृत्-
 ज्योतिषेम°, पवदश°, त्रिवृजानना-
 (न आ) दि-°, त्रिवृत्- १अ°,
 १त्रिसत्- १अष्टि°, त्रिमोक->
 त्रैशोक- श्वनाथ°, त्रिपथि- म नो-
 च°, त्रिष्टम्- अतुष्टम्°, आची°,
 आधुती-°××, त्रैष्टुम- औष्टिद्°,
 गवतन्, त्रैरात्र, त्रिम् () द्विथी ३, ८,
 ५७, त्रि लक्ष, धा-°- शम् १ द्विथी

a) वै १८ । b) खलर्ध घन प्र । c) = तेदनि- । d) पृ ११८९ सरय वदनी-> नीम् इति नष्टम् । एतद्वत् तत्रत्ये ऋ ष टि नेष्टे । e) सवा शोष्ट २, १२, १० तेदनिम् इति पाठे । f) पृ ११८९ अद् वदपा नेष्टे । g) रोक्म इति सररर्द्ध शोष । h) = सादृशिक । वस । i) पाठ १ इष्य इति शोष (द्र शौ ७ १०५, १) । तत्रत्य d नेष्टम् । j) वृ पागम । व्यप । k) पृ ११९३ (वा अ) पाठि द । l) परस्व ७ १०५, १) । तत्रत्य d नेष्टम् । m) = त्रिगुण । n) पृ ११२५ d, ० द । o) पृ ११०८ यान द । p) यम । पृ ११२२ b नष्टम् । q) पाठे पृ १२१२ ० द ।

१८४, ५१, -क्षाम् शाश्री १३, २९,
 ३०^३, *त्रि० दान- वसु ती^०,
 त्रि श्य (त>) या- तथा काग
 ३१ ३^०, *त्रि-मनुद- द्वेन शाश्री
 १४ २, ९ त्रिसहस्र- तत्पत्र^०,
 *त्रि-सूत्र^०- पाग ४ २, ६०, त्रि
 स्तन^०-, त्रेता-अ प्र^०, त्रेधा पा ४, २,
 ४९, *त्रेधा भा०- जाय या १२
 १९, *त्रेधा विभक्त- कम् वीथी
 १६, २६ १०, *यत्-समिध्-
 सादिर^०, १२यक्षर-अधिक^०, *यद्-
 मद्^०, *य्य(त्रि वा)अल्^०- पा ५,
 ४, १०२ *यन्तर रा-एकान्तर रा^०,
 *ययवक- > १त्रैययवक- पितृ^०,
 *यवि^०-, *यह-कनिष्यव^०, २अय-
 भेष^०, १अर्हान^०xx, *य्या(त्रि वा)
 पं- एकाप^०, *यार्थेय-१अ^०

*यिनिशक्तमस्यामह वीथी २६,
 २० २
 *यिनिशदेव^० अय २०, २२
 युष्टि- पुष्यरत^० > त्रि परि^०,
 *य^०-अत्, आत्त^०, *यिनि^०, गो^०,
 त्व^०, यप^० १दस्त^०, १त्राय-अम्
 आपय २ २० २१^१ हिय २ ५,
 २३९^१ [य- आत्त^०, यिति^०,
 १यात्xx] २यात्- २यत्, *या
 मद्- सु^०, यायमाण-, √त्यक्ष
 > ययम्- प्र^० त्वपृ- पा ६, ४
 १^० [य- घोम^०] त्वपृ- अमेय^०,
 तापि^०, त्वपृ-> णी साप्त-
 ऊत्त^० भीद^० √त्यच > यच-

वापृ^०, २नेह^०xx, स्वक् (-क)-
 अयस्^०, अयस्ता^० ४स^०, *त्वक् चर्म^०
 वीथ ३ ८, १६, *त्वक्-त्र- निवृ^०,
 *त्वम् अ त- आत्प्रसृति^०, *त्वद्-
 नस-सोमन्- २तु^०, *त्वच- मिध^०,
 १पृ^०, *त्वचस्- २तृ^०, √त्वद्
 परि^०, सप्^०, त्वर- १अ^०, ४स^०,
 त्वरमाण- त्वरमाणपन्था-, त्वरा-
 १अ^०, √त्वियम् > त्रिय- मरकत^०,
 १वात्, √त्सर^० अतु^०, परि^०, स्तस-
 वास्तवस्^०, १दृष्ट^०, कृष्णाय १xx,
 त्वर(क)- १अ^०

थ-द

थ- लृत्^०, १त्, स^०, २त्
 द्, द्वा- लृत्^०, १^०, २^०, द्वात-
 १अ^०, *द^०- १यत्, *दि^०-
 कृत्^०, ४द- √दा (दाने) परि
 द्, ५द- √दा (अव^०) परि द्
 √ददा उप^०, वि^०, सप्^०, दत्त-
 पत्त^०, १द^०, दसमसक- प्रासुर्^०,
 *दशन-, *दशम्, दशमन्- तुष्ट^०,
 दध्, द्वा- १अयत्^०, १आन्^०,
 वत्^०xx, *द^०त्- २द^०,
 द्दि^०- २अ^०, शृगाल^०, सर्व^०,
 दशन- पुरचला^०, *दस्य, दस, सा-
 द^०, २वि^०, १द^०xx, √दस्
 > *दस^०- १पृ^०, दस्य- सु^०,
 दस- म सत्^०, √दष्ट > दक्ष-
 कृत^०, दीन^०xx, १दासायन-
 दग्माथे^०, निष्प^०, दासि-

तर्पित^०, *दक्षि^०- अतु^०, १दक्षिण,
 पा- णा द्विथी १७ २, ४०^०,
 -णेभ्य^० द्विथी २३ २, ११ [०ण सा-
 १अ^०, अय^०, २अपर^०xx], *दासि-
 य- अय^०, अहिता^०, १आहु^०,
 दक्षिणपारव- तद्^०, *दक्षिण प्रया
 सद्- १अ^०, *दक्षिण भाग- निर्ग
 मन^०, दक्षिणा जेथ्रीना ४२^०,
 दक्षिणाप्रव^०, दक्षिणात्- ४अ^०,
 दक्षिणाग्नि- आहवनीय^०, १गार्ह-
 ५अ^०, १दक्षिणायन- उदयन^०,
 दक्षिणोत्तर रा^०, २दक्षिणा- १अ^०,
 अति^०, अ^०याघव^०xx, दाक्षिण-ग्रह^०
 √दथ् अति^०, आ^०, प्रति^०, *दथ्-
 १दाक्षण^०, *दध्वन्- पस्वा^०,
 पस्वात्, १दण्ड- पा, पाय ५ ३,
 १००^१ [०ण- १अ^०, अयस्ता^०,
 अमिहित^०xx] दाधिक, क-
 १अ^०, सत्सृष्ट^०, दण्ड(क)- २द^०,
 दण्डक- १कुत्^०, *दण्ड त्व- साह^०,
 धि^०, दण्डधारण- मेखलाधारण^०,
 *दण्ड धरिवेष- कथा^०, *दण्ड-
 पारथ- वाक्पाठय^०, √दण्डि >
 दण्ड- अदस्त्^०, सुदण्य^०, दण्डि
 क- विनिस्त^०, १दण्डिद्- आपम^०,
 वदधि^०, दण्डय- १अ^० सु^०, दत्-
 अ^०, १अप्र^०, अयत्^०xx, *दति^०-
 कृत^०, √वद् आ^०, परि^०, *ददु^०-
 पवित्र^०, √दध्नि^०, प्रति^०, २दध्वन्-
 १अ^०, शृत्^०, १दधि- वि णि
 ११०, १^० [वि- १अ^०, अयत्^०,

a) पाठ १ क्षान् इति श्लेष (तु वा २५ १३, ४)। b) अस्यापि वृ १२०९ ङ समावेश इ ।
 c) तु फयव । d) वृ ११२२ थ > अ इ । e) उप = अजपति । f) वृ १२१५ यति इ । g) पाठ १
 विमोक्ष इति श्लेष । h) कर्त्तरि क्त् । i) यति स्थल श्लेष । j) वैप १ इ । k) = त्वप् ।
 l) = दन्त- । m) = दसम । n) फले वृ २१३८ इ इ । o) = दधिप् इति कृत्वा दासि इति ० श्लेष
 (इ आ १.१ १३ ५ ६) । p) सप जेथ्री ३ ६ दक्षिण इति फले । q) दधि > यति इ । r) वत्
 वा इय वा पय वा । s) = दत्त (तु वैप १ १०९५ c) । t) = ददु- । u) सपा वीथ १, १०, १४ दध्पोदनम्
 इति पाठ ।

अध०xx], १दधि-श्रीर सर्पिण्(क)-
४स०, दधिपदस०, दधिभक्ष-
यथा०, १दध्ण (धि ध) क्षत-दूर्वा-
प्रगल्-; १ए पुण्य- श्वाङ्कुव०,
दध्पोदन- नम् मौष्ट २, १०, १४^०
[न- शुभोदन०]

१दधिरथ०- विभोदक०, १दध्नु हिथ्री
१दे ४, १३^०. दन्त- १अ०, १अप्र०,
अजात०xx, दन्त- (क)- १अ०,
अनुत्पन्न०, दन्तजात- १अ०, दन्त
घातन- अजन०, तप्याभ्युत्थान०xx,
दन्तप्रक्षालन- अथलपान०, वादसध०,
दन्तमूल-> १शौच-१शौरस०, युग्मा-
न्दस्या०, दन्तरोति०, १दन्तस्वयन-
१दन्त स्तलन- मृत्०, दन्ताप्र-
गजत्र०, १दन्ता(न्त आ)यान्ति-
१अ०, दन्ताभि- न्तये आसिष्ट २,
५, २ ३, दन्त- १अ०, १शौरस०xx

✓दध्, दध् भव०, १दध्, दधा-
१अ०, १द [द, ल] भ०- द०,
दध्- १अ०, पेटुम्न०, सु०,
दाग्नि- १अ० पुश्वली०, १शोक०,
१दग्नि- सपन्न०, रीशुद्ध०, १दा-
[द] भ०- अशुवान०, द०, नक्षत्र०,
१दाम्य- १अ०, १दध् > १दध्-
अरिम्, ऊर्ध्व०, १शम०, सव०,
दमन- शत्रु०, सर्व०, १दमन १धेस्त-
पात-नष्टन वषट्कारण भूपम-धोजन-
तैलमन्त्रीपधमैव-वक्रिया- दोग्री०,
२दान्त- १अ०, शान्त०, छुछुद्ध०
✓दध् ३५, निरव० भि०, दधमान-

दधा- १शम०, १दर०, १दर०-
सद०, १दर०- १अ०, ४दर-
✓द (आदरे) परि. द; ५दर-✓द
(विदा०) परि द, ६दर- ✓द
(वधा) परि द, २दरण- ✓द
(आदरे) परि. द., दरणीय- ✓द
(विदा०) परि द, दरिद्र-अत्यन्त०,
दुज्ज०, सुदोष०, ददुर- १ र०

१दध्- ऋदुर०, १उदुम्भर०, उदुम्भर-
पर०xx, दध्कृचं- एषविशति०,
१दध् तिल-; दध्पिञ्जल- ४५०,
दध्मणि- म-जोव०, दध्मुष्टि-
स्वय०, दध्मूल-; १दध् घव- ४स०

१दध्- मांय वेष्ट २, १२: १३^१
दध्- अलातु०, ओदन०, पृथी०, वि०
दध्, धी- १अध०, ओदुम्भर०, चम-
स०xx, दधि, धीदोम- १अ०, द्विदे-
न्त०, सर्व०, १दधीदोम०- एष्टिक०,
१दधीकर- २शक०, १-२दधीक-
प्रथ ✓दध् (परि) द., ✓दल

>दल- तुलसी०, द्वि०, नीलोत्पल०,
वि०, १वेणु०, १दली/क > दली-
कूल- सताकुल०, १दश, शा- क-
च्छिक०, समाच् ०, आच्छिन्न०, आन०,
१उदर०xx, १दशा(क)- १अ०,
दशापत्रि- ४स०, दशान्- शम
आश्री १२, ५ २ [०न्- १अध०,
१एक०xx] १दश- कण०, नि०,
निर्द०, ४स०, दसक- यो०, २दशगज-
पितामह०, दशापद- यजमान०, दश
वेद्य- अग्निवेदनीय०, दशाभाग-

धन०, दशम- अतु०, अर्ध०, आग्नि०xx,
दशमी- धरराजित०, २आध०,
चतुर्थी०, द्वितीया०, १दशमी-स्थ-
चक्रिन्, दशरात्र- १अ०, ३५०, गो-
वत्, दशोम०, निहा०, १दध्, १द-
शवर्ष- अनुमुक्त०, दशवितरि०-
-स्त्रि. बाहु ५, ९०, दशरात०-
दशसहस्र- मायत्री०, १दशाक्षर-
राशि[०न्- कशाक्षर०], २दशाक्षर-
पठक्षर०, दशाह- आ०, चतुर०,
छन्दोम०, ज्योतिषोम०, त्रिकुण्ड०,
निर्द०, निर्गत०, १दशाह-व्यपेत-
१अ०, १दशिका- १अष्टिक०, १दशिक-
दर०, १दशोरक- महेर०

१दशोक०- अग्निवेष्ट०, दश्य
✓दस् (परि) द, ✓दस् २दद०,
उप०, वि०, १दस्त- १अ०, १दस्व,
१दस्वय- दस्यु- बहु०, १दस्यु-
प्रोदय- १अ०, १दासिन्-; १दा
(स >) सो-; १दासु(क >) का-

✓दह् अति०, अप०, अपा०, अपि०,
अभि०, अम्भा०, अवं, आ०, २उद०,
उ०, १द०, निर्द०, परि०, २प्र०, प्रति०,
नि०, स०, दध्- १अ०, अति०,
अतिपल०xx, १दश-यथ- नष्टास्त्र०,
वश्या १अ०, दहत्-; १दहन्वी-
दहन- १अ०, अगार०xx, १दहस्, १,
दहमा(व >) मा-; १दाय-; दाह-
अगार०, अश्वत्०, नदी०xx, दाहन-
१दाहिन्- अगार०, कक्षजन०, मेहे०,
दास- १अ०, आपद्, १दहत्-

द) पृ १२३३ -सी इति नेष्टम् । ह) पाठे पृ २८९६ व द । द) नाम (२३ [परि६-१]) । द) सप्त
आपथी २२, ९ १५ मय इति पाठे । e) १श> गति द । f) वैप २ द । g) वर्तते भावे वा कृत् ।
h) पृ १२३५, १२०० यनि तटपासकत द । e) अर्थे व्यु च० । j) यस्य सनि शोध । h) रत्नार्थे प्र ।
i) = सर्वविशेष । दर्शो-न्त- इति MW । m) पृ १२४२ दशापन्न० इति नेष्टम् । n) विन । तदितार्थे दिस ।
o) द्विदस० इति षट् २ यनि शोध (तु माध्यम्, चोत सुन्दरराजोया व्याख्या [आपृ ८, ३] च) । h) मलो
वस. वा दस वा (तु रिंयति घत- टि) । एतदतु पृ १२४५ g नेष्टम् । g) मलो वय । १) पृ १२४४
२दशाक्षर- शयमाय योगो नेष्ट । २) -वप । १) अतु प्र. ।

दहर- १२७५३^{००}

√दा दानि शाश्री १५ २०, १^० [अति-
 ५^०, अतु^०, अनुप^०, अपा^०, अमि^०,
 अम्ना^०, अश^०, अश^०, उदा^०, उपा^०, उपा^०,
 परा^०, परि^०, प्र^०, प्रति^० प्रतिप्र^०, प्रत्या^०,
 वि^०, स्वपा^०, द्या^०, द्युना^०, समा^०, सप्र^०],
 *१त्त, १३३, दा- व्यस्यवत्^०, आस^०,
 अज्ञ^०, द्विविण्ण^०, धन^० × ×, *दत्-
 द्विविण्ण^०, दत्त^०, ३३३, चा- १अ^०,
 आप^०, अर्थमन्^० × ×, दत्ता १अ^०,
 दत्- सु^०, ददत्- १अ^०, *ददान-
 ददि-^०, दा^०, अन्तरिक्ष^०, अमान^०,
 आत्मन्^० × ×, *ददात्- त्वा^०, दात्तै,
 दात्तय, द्या-^०, *दाति- ०५५^०,
 दात्- १अ^०, अभाव^० × ×, *दातोस^० (),
 १दात्- २दत्तद^०, १दान- १अ^०,
 असा^० गोट^०, अति^० × ×, २दानवमन्-
 १अ^०, *दान च्युत^०- वाश्र^०, *दान
 निश-^०, *दान प्रज (<ज्ञा)- १अ^०,
 दानाधि- अशरथ^०, दान होम-
 पाक- सर्व^०, *दाना (न आ) दान-
 २दक्षिण^०, *दानीय- १५^०,
 *दापन- *दापय, दाप-^०, *दापय,
 *दापय- पा ३, १, १३१ [०-
 अत^० पुन^०] *दापक- महर्द^० स्वर्ग^०,
 द्यु^० *दापयन्, *दापिन- १अ^०,
 अमव^० × ×, *दापिनी- आन^० द^०,
 १का^०, मन्वन्त^०, *दापय- १मूर^०,
 दानन्- कापु^०, धन^० × ×, १दापय^०-
 १अ^०, १दीपमान ना^०-^०, देय, या-
 १अ^०, पात्र^०, मद्रत्^०, प्राज्ञ^०, सुल^०
 √दा (दाने) > १दात्-^०, २दात्-
 पात्तय^०, √दा, दो (धवराएने)

अप्यव^०, अव^०, उपाव^०, निरव^०,
 पर्यव^०, प्रत्यव^०, ०५९^०, सम^०,
 *२त्त, चा-^०, *त्ति-^०, *त्ता, *५द-
 १अज्ञ^०, *५दान^०- १५२^०, *दानी-
 २^०दाय, *२दापयत्-^०, *१दित-
 पत्तय^०, *२दीपमान-^०, *०,
 *दत्-^०, √दा (दाने) नि^०, मन्^०,
 ३दान-^०, *३दाय, *२दित-^०, *दित्य,
 *३दीपमान-^०, दाक्षिण्य- १दक्षिण-
 (परि) द, दाघ- √दप् (परि) द,
 दाङ्गिम- च्चव^०, २दात्-
 √दा (दाने) परि द, ३दात्-
 √दौ (शोधने) परि द, दाति-
 दातोस () √दा (दाने) परि द
 *दात्पूह^०- कतविद्^०, देदान^०,
 ५दान-^०, दानी- √दा (अ^०)
 परि द, दानीय- √दा (दाने)
 परि द, १दानु- १जाव^०, मह^०, सु^०,
 दातव- देत्य^०, दापन-^०, दाप्य
 √दा (दाने) परि द, दा, दा।
 भ-^०, दाम्य- √दम् (परि) द
 दामन्- १अश^०, १तु^०, दृष्टि^० × ×,
 दानदत्त- दानि लाश्री ८, ६,
 २१^०, १दाय √दा (दाने) परि द
 २दाय √दा (अव^०) परि द
 ३दाय √दा (बन्धने) परि द
 १दाय- √दा (दाने) परि द
 २दाय- √दा (अव^०) परि द
 ३दाय^०- १अ^०, अविमत्^०, श्रौति^०,
 विमत्^०, तर्ह^०, दायक- √दा (दाने)
 परि द, १दायम्^०, २दायम्
 √दा (दाने) परि द, दायाद्-
 १अ^०, १पन्थु^०, नरीर^०, रवामिन्^०,

दायाध- दुहितृ^०, पुन^०
 दायिन्-^०, √दा (दाने) परि द
 दार- १अ^०, अगुप्त^०, अति^० × ×,
 *दार- सूत्^०- १अ^०, दारण- √द
 (विदारणे) परि द, २दात्-
 पावग ६, ३, १२०^० [०- ४३
 दश^०, ३अ^०, एकविंशति^० × ×],
 दावाघट- सिधुमिन्^०
 दार्य √द (विदारणे) परि द
 दावाहोम- ददि- (परि) द
 *दाल- १देव^०, दाल्य √द
 (विदारणे) परि द, दावत्-
 √दा (दाने) परि द, √दात्
 (दान) > २^०दात्, दात्त^०- द^०,
 *दात्तु^०- १अ^०, १दाश^०-
 *३दाश^०- पुरत्^०, *दाशर^०-
 मङ्गीर^०, √दास् (रिता^०), दास्य-
 अमि^०, १दास- अदाशी^०, जल^०,
 दासी^०, दिव^०, १देव^०, पञ्च^०, सु^०,
 दासी- १अ^०, १ज्जगात्^०, तद्^०, *दास-
 पुरव- गो^०, *दास पूरप- रहु^०,
 *दास भार्या- ४अ^०, दासमिथुन-
 धेनु^०, दास्य- वध^०, दासक^०-
 मङ्गीर^०, दासिन्-^०, दासु (क >) वा-
 √दस् (परि) द, २दास्यत्-
 √दौ (अव^०) परि द, दादिन्-
 √दह (परि.) द, विकम्^०
 १दित- √दा (अव^०) परि द
 २दित- √दा (बन्धने) परि द
 दिति- १२^०, सु^०, दित्य √दा
 (बन्धन) परि द, *दिसु^०-
 अशमन्^०, २दिधिपु, पू- १५अ^०,
 ३अ^०, अनेदिधिपु^०, दिधिपूपति-

a) = कन्दु विधेय । शूक- इति अण । b) पामे तैप २, २४ ददानि हे ७, १५ टि द ।
 c) वष १ द । d) माय वा रिचन्त वा । e) द्यप । षट् < दावच्युति- । f) पृ १२५०, ५५ यनि
 ०५५५के द । g) पृ १२५१ यनि संख्याकनेन द । h) मदि करणे वा ४२ । i) = पदि विधेय ।
 j) पृ १२५१ यनि द । k) पृ १२५२ नाश्री ६, २१ > यनि द । l) पृ १२५२ यनि, संख्याकनेन द ।
 m) यनि स्पष्ट शोध । n) पृ १२५४ यनि संख्याकनेन द । o) ध्यर । p) पृ २७११ पृ द ।

अभिनिमुक्त^{००}, श्लोठ^{००}...

दिन- रश्मयसान^०, आदित्य^०, एवा-
 दश^०xx, *दिन(न-श्र)क्ष- पुष्य^०
 ✓दिव् अभि^०, आ^०, परि^०, प्रति^०, वि^०,
 दिव्- दिव शश्री ५, १०, २१^१
 [व- स्वम्^{००}, प्र^०], दिवावर-
 इन्द्र^०, सुदुग्मन्^०, रजनिवर^०, दिवा-
 कीर्ति-> र्व- अन्त^०, प्रतिगन्ध^{००},
 महत्^०, दण^०, *दिवा(वा-अ)दिन्-
 १३^०, दिवास्वप्न- उष्णामुत्पान^{००},
 १५^०, *दिवा स्वापिन्- १३^०,
 १दिव्य- अभिभू^{००}, अभिषेव^०,
 नाग^०, भौम^०, सर्व^०, *दिव्य-
 पञ्चाया- शाब्दक^{००}, शु- क्षिति^{००},
 हृद्^०, शो- १३^०, चावा
 > घारापृथिवी- निर्वर्तित^०, भक्ति^०,
 घारापृथिवीय- वैश्वदेव^०, साजिन^०,
 १दिव- अहृद्^०, द्वि^०, नक्षत्र^०,
 वृहत्^०, रात्रिम्^०, सु^०, २दिव-
 महत्^०, दिवम- अयुग्म^०, १एव^०xx,
 दीव्यत्- १३^०, १देव- नः
 द्वि २, ०७, ०१^०, -० वा शिथी
 २५, ७, १९^१ [व- १३^०, अति^०,
 अन्नादि^०xx], देवी- वी आभिष्ट
 २, ४, ० २०^० [वी- १३^०, अन्ना^०,
 १गत^०, सुन^०], देव- १३^०, अवि^०,
 अर्णव^०, द्वि^०, बहु^०, ४स^०, दैवी-
 > *दैवी-सुहृती-, वे (वक >)
 विका- देवस^०, देवजल- प्रक्षय^०,
 देवगृह- २वेदि^{००}, देवजन-
 रसत्^०, १सर्व^०, सर्व^०, देवता- न्या
 प्राय २, २, १६^१ [वा- १३^०, अति^०,
 अति^०, अभिकामुर्ष^०xx], देवत-

अपर^०, अमि^०, अ^०धिxx, वैवस्व, रवा-
 अमि^०, अवि^०, अदिवरस्वतीन्द्र^०xx,
 देवता(-क)- अमावास्या^०, आरमन्^०,
 असा^०दी^०xx, देवतानामन्- १३^०,
 देवताप्रतन- कृप^{००}, समान^{००}, देव-
 ताविद्- १३^०, १देवदत्त-> वैव-
 दत्ति- (> *दैवदत्ता- गा) पाप
 ४, १, ८^०, देववती- मन्त्रोक्त^०,
 *देव-वद- अति^०, देवविन्- तर्क^०,
 *देवपितृ-यजन- १३^०, देवपुर->
 *रीव- स्वस्वयन^{००}, देवपूजा-
 वसनरनकरान^०, देवमनुष्य- ४स^०,
 देववजन- १३^०, तत्^०, दिवि^०,
 पृथिव्याम्^०, देवराज- ४स^०, *देव
 श्रयस^०- विश्वामित्र^०, देवसु->
 देवसुवा-द्विस^०- विभि^० वीथी
 २८, ५:-६-६, -वीपि आथी
 २७, २२, ९, १८, १२, ४, वीथी २०,
 ५५ १०, ११, २: २३, १२, ७:
 १२, १५, १७: १०, ३७ १६,
 नैथी १७, ८ २, १९, ६: १४५, हिथी
 १२, ६, २९, देवसूतं द्विस^०-
 वीपि काथी ४, ११, ५^०, आथी
 १३, २४, ८^०, देवस्वां द्विस^०-
 विभि. माथी ५, २, ७, २०, -वीपि
 काथी २, २, ४, २४, ३, ३, १, ५०^०, ४,
 १, ५६^१. *देवा(व-अ)क्ष- रवा^०,
 देवापि- शंतत^०, देवायतन- प्रश-
 स्त^{००}, *देवा(व-अ)र्वन- स्वाभ्याय^०,
 देवापृथ- सुधम शीथी १०, १६,
 ६^१, देवन-, *देवना-, *देविन्-
 जपि^०, वृताक्ष^०, १सुर^०, *दृक्-
 १५^०, दृक्- १३^०, १अक्ष^०, छत्^०,

पाथिन^०, प्रातिमाव्य^{००}, घन- आ^०
 *दिविधुवन^०-०वा^०, *शदिव्य^{००}-
 -व्येन सस् ३७, ८०
 ✓दिव् अति^०, अमि^०, अनु^०, अनुनिद्^०,
 अनुद्^०, अन्वव^०, अन्वा^०, अय^०,
 अभिनिद्^०, अन्मुद्^०, अन्मुप^०, आ^०,
 २उद्^०, उय^०, उपाति^०, निद्^०,
 निरा^०, प्र^०, प्रति^०, गिनिद्^०, -वय^०,
 व्या^०, व्युद्^०, सम्^०, समत्^०, समा^०,
 समुद्^०, सप्र^०, दिस्- अन्त^०,
 अन्वदेवता^०, अन्त-र^०xx, दिशा-
 २अपर^०, अन्त-र^०, चतुद्^०, वि^०,
 दिक् (-क)- १३^०, दिक्शब्द-
 अन्वय^०, सु^०, *दिक् ग्री- १३^०,
 दिग्दाह- निर्धात^०, ग्लन्म^{००}, *दिग्-
 देव- दन्दादि^०, *दिग् दिरद-
 तिमिर^{००}, दिश- यथा^०, सर्वतम्^०,
 *दिश प्रतीक्या- ग्यामाथी ५ २,
 १२, ३१, *दिशा प्रतीक्या- ग्या
 वीथी २४ ३७ ७, -ग्याम् हिथी ४,
 ५, २६, -ग्याथै वीथी २०, ३०:
 १०, दिशात्-, *दिव्य, *दिव्यमान-,
 दिष्ट, छा-, १दिष्टि- १५^०, चतुद्^०,
 देश- १३^०, अंत^०, अमिष्ट^०, अन्वा-
 यतन^०xx, देशकाल- १३^०, अतुत्^०,
 *देश-काल-कर्थ- १५^०, देशजाति-
 कुल-अन्व^०, *देश-जाति-कुल-रुपा
 (५ था) सुश्रुत सुत वित्त सुव-
 मेधस- विधिष्ट^०, *देश-पति->
 *ति-श्रोत्रिथै(व-ए)कतीर्थ-प्रायण-
 पौर्णमासी^{००}, *देश-पयत्र- १तुल्य^०,
 देशान्तर- सुपुत्रन^{००}, देशान्तरित-
 १नात्^०, *देशक-, *देशान-, *दे-

a) पामे देव २, १५७१] द । b) पाठ १ देवी इति शोधः । शिष्ट १मान. सपत्ना टि. द ।
 c) पामे देव २, १६०१ III द । d) पाठ १ च्याम् इति Old शोध । e) तु पामम । f) स्वप ।
 g) परस्पर पामे । h) इ १२७४ देवसुवाय्, देवसूनाम् इति नेष्टम् । i) इ १२७४ मुद्रापितृवर दयस्व ० इति
 पाठ १ वनि शोध. (तु प्रथम स्थलम्) । j) देवा वृषम् इति पाठ १ वनि शोध (तु रीत्या ३, ५, ०) ।
 k) देव १ द । l) = [प्रस्तरुत] तुल्य गेद । m) = साम-भेद- ।

अम् 'दिसि(र >)नी- १६३५°-
पाग ६, २ १३१, 'देष्टव्य- , देष्टु
√दिह् शभि°, अन्°, प्र°, सम्°, दिग्, व,
ग्वा- पुराणशुत°, सूट°, निपयो
णिन्°, 'दिह्- सु°, 'दिह्, १३६ह-
पाग ६ १, १५६° ['ह- आ१५५°,
उपहत°××], देहिन्- सन्°,
'देह्- , 'देहन-

√दी (गती) पार°, √दी (दीती)
अभि°, आ°, आञ्जु°, सम्°, √दी
(खे) उपा°, दीन, गा- १अ°,
दैन्य- आनोष°, √दीङ् उपा°,
सम्°, दिदीक्षण- १अ°, दीक्षण-
> °कीव, या- अदि°, अन्व°,
४अ°, दीक्षमाण- , दीक्षा- अदि°,
अन्व°××, दैक्ष- उपरिष्ठात्°, 'दीक्षा
(क्ष-अ) वभृथ- नाना°, दीक्षो-
पसव् (क) - ४अ° २दीक्षित- १अ°
आचार्य°, अलिङ्, 'दीक्षिन्-
एकाष्टका°, दीक्षिष्यमाण- पर्येता
मन्°, 'दीक्ष्य

दीति°- सु°, √दीधि (दीती) अभि°,
√दीप् अन्°, आ°, उवत्°, उपा°,
परि°, प्र°, सम्°, ५अ°, दीप- १अ°,
अप्यत्°, अप्यन्°××, २दीपक-
ष्ट°, ४अ°, दीपिवा- प्रयोग°,
१३ मीन्, दीपन-, 'दीपित-,
'दीपि(र >)नी- बुदि°, दीप-
ऊर्ज°, दीपान्नि- अन्°, दीप्ति-
३अलि°, १तीक्ष्ण°, २पावक°, अरि°,
'दीप्य, दीप्यमान-

२दीपमान- √दा (दाप) पारि
द, ३दीपमान- √दा(बन्धने)
परि द, दीपि- १अ°, अति°

अनुनासिक°××, 'दीर्घ काम-
अन्वाशिन्, 'दीर्घ केअनत्तद्विज-
महोदरमुजोररु°, दीर्घता- चोरस्त-
नित°, दीर्घर- अभास°, उपसर्जन°,
उपाचार°××, दीर्घ अयस-> दैर्घ
अवस- समन्त°, 'दीर्घ सूत्र- १अ°,
दीर्घोभार- अन्त पद°, √दु, दू
(उपतापे) अभि°, वि°, सम्°, दाव°-
अन्वत्°, प्र°, विन्व°, 'दाप्य°-
विन्व°, दून, ना-, 'द्वयमान-

दु दु ख- १अ°, अक्षि°, अति°, अयु°
भूत्°××, दु खित- सु°, √दुष्, दु
दुह् 'अभि°, उव°, निर°, प्र°, प्रति°,
सम्°, दुग्ध, गधा- १अ°, १अर्क°,
अह्ता°××, 'दुष्- २आरिद°,
१वाम°, १धर्म°, अत°, 'दुष्, वा-
१वाम°, १धर्म°, २माग°, प्रत°,
सम्°, सु°, 'दुर्- १वाम°, गो°,
१धर्म°, धर्मप्रत°××, दुह, हा- प्रत°,
दुराता- १अ°, 'दुर्, दोह- १अ°,
३आप्य°, गो°××, दोहन- कांस्य°,
१धुम्बी°, गो°, प्रातर्°, तत°, सु°,
'दोहव°- सव°, 'दोहि(र >)नी-
पूर्व°, 'दोक्ष, दोक्ष, हा-, 'दुष्-
दुन्दुभि- सुव्य°, गलेन्द्रवलाहको
धन्वन्°××, दुर्- १वृ°, दुरार्थि-
> दौर्गन्धी- अर्थि°, रदुर्ग- १अन्व°,
पन्वृ रि°, रदुर्गिण्य°, 'दुर्गा
(रि-अ)सुमन्त्रण- ईक्षकविषय°°
'दुर्जय- सु°, दुर्दर्श- स्थारक
दिन्°, दुर्वल- १अ°, ज्ञान°, १अन्व°,
दीर्घ- १अन्व°, शत्रिण°, पात्र°,
पूर्व°, दुर्भग- पदाक्षिन्, दुर्मिष्ट-
व्याधि°, २अन्व°, दुर्मूत- दु २अन्व°,

'दुर्-मह (ल >) ली- १अ°,
दुर्लभ- पुनराशुति°, दुर्बल-
इण्डाशिव°, 'दुर्-विभाव्य-
रेपादिगणरत्नाशु°, दुर्धर्मन्-
२२२र°, द्विर्नम°, दुर्द्वेला-
'दु-शंस- १अपरंश°, दु शीला-
गणिका°, दु श्रुत- अश्रुत°,
√दु(दू)प् प्र°, नि°, सप्र°, दुष्ट,
धा- १अ°, अतिपण°, वर्मन्°××,
'दुष्ट वर्मन्- १अ°, 'दुष्ट प्राह-
पक्ष°, 'दुष्ट निप्रद- प्रजापालन°,
'दुष्ट भोजन-अप्य°, 'दुष्य- १अन्व°,
'दुष्- १अन्व°, 'दुष्क- १अन्व°,
कन्या°, अद°, पदिक°, दूषण- अर्थि°,
कन्या°, १शुचि° ह्यवा°××, दूषविशु-
२अव्याप°, दूषि- ३तन्°, दूषित-
अभि°, भाव°, 'दूषिन्- कन्या°,
दूष्य >) ग्वा- १अ°, दोष- १अ°,
१अन्व°, अदृष्ट°××, दोषिन्- कन्या°
दुष्कृत- सुकृत°, दुष्कृत- 'दुष्-पार-
सु°, दुष्कृत- > दुष्कृत्य- जाप्रद°,
दुस् पाग १, ४, ५, ६°, दु स्वप्न-
-० पादि°, दु स्वप्नदोष- अभिअन्व°,
दु स्वप्नमान- मन्त्रो°, दुहितु-
अदि°, आचार्य°××, दीहिन्- पुर्ण°,
दीन, दू > दूड (र) भ- दृष्ट°,
दृष्टात्°, दृष्ट- दृष्टात्°, दृष्टात्-
दृष्ट°, दूत- अभि°, दृष्टत्°, १आत्°,
पाथन्°, पलाय°, २व°°, सव°, 'दृत्-
गो-अक्षय-वादिन्- अथवात्° पा-
दुष्°, दूर- १अ°, अति°, अन्त°××,
दूरग-, 'दूर गामिन्- १अ°, दूर्वा-
अरण°, १अर्क°, अर्क°××, 'दूर्वा-
प्ररोह- बाण°, 'दूर्वाप्रमाण-

a) इ १२०५ यदि अख्यासकेत द । b) वैग १ द । c) यान २५४ श्लोष । d) भाष ।
e) भाष, भाष । f) पा ३, २, ६१ पशुश्ल द । g) वर्जार्थे प्र । h) पाथे श्लो १८ टि देवम् ।
i) इ १२१४ °व्य > यदि द । तप्रवे १ वष उप = २वेल्- इति पठनीयम् । j) यत् । k) पाठ इ °व्याप्
इति श्लोष (दृ उपा. श्लो ७, १०५, १ कौ २५, ११, २१ हुण्ट्यप्याह इति पाथे) । अत्यन्त इ नेष्टम् ।

३चिति^{००}, द्वारोपण-काण्डादि,
 द्वारोपण-चान्दन^{००}, √ह (आदरे)
 अनुद्^०, आ^०, *धृदर- *दृरण-
 *दरयित्- *दर- *दरय, दृय-
 √ह, दृ (विदारणे) अनु^०, अव^०,
 आ^०, २उद्^०, परि^०, प्र^०, वि^०, १दर^०-
 १दर^०, वरशाय^०, *१दर^०-पुरम्^०,
 नगम्^०, १दरण^०-उल्लूखल^०, *दर-
 णीय- १द^०, *२दर^०-उदर^०,
 *दारण- दारण- अति^०, अग्रम^०,
 परम^०, मर^०, १दृष्ट^०, १दृष्ट^०, *दार्थ,
 *दाल्य, दीर्घ- स्वयम्^०, *√ह दृ
 (२धा), ६दर- प्र^०, √हं ह अग्नि^०,
 परि^०, वि^०, दृष्ट- गर्भ^०, दृष्ट, द-
 १द^०, मु^०, दाल्य- सहितापद^०, दृ-
 त- ४त^०, *दृष्टरूप- अस्तीत्^०,
 *दृगल- पुरोडास^०, १दृति-
 १दृणाजिन^०, १दृधि^०, सुध^०, सखीर^०
 √हृत् > दपं- दम्न^०, दपं-
 ४त^०, १साम्^०, दृ- गर्भ^०, गेह^०,
 √हम अनु^०, √हृत् अति^०,
 अनु^०, अग्नि^०, अग्नि^०, अग्नि^०,
 अभ्युद्^०, आ^०, २उद्^०, उप^०, नि^०,
 परा^०, परि^०, प्र^०, प्रति^०, वि^० सम्^०,
 सप्र^०, १दृर्षी (वश)- चण्डाल-
 पतितादि^०, छदिसु^०, दृ^०, १देव^०,
 मन्त्र^०, *१दृर्षी-क- नियहोम^०,
 २वर्षापूर्वमास- अग्निहोत्र^०, अग्न्या-
 वेद^०, अ-वारय^०, विम्^०, निदम^०,
 होम^०, *२दृर्षी-क- दशत- विद^०,
 १दृर्षी- १द^०, अग्नीषोमीय^०, अद्-
 मु^० xx, *दृर्षी-क- १वि^०,
 *दृर्षी-क- स्त्री^०, दृर्षी-क-
 -पं आरण्य १८, १०^०, दृर्षी-क-

१५^०, *दृर्षी-क- वरयित्वा, वरयित्वा,
 वा- *दृर्षी-क- अनुत्^०, अने^० xx,
 दिव्यु- सम्प्रमि^०, दृष्ट- अन्वा^०,
 एता^०, वी^०, ३त^०, दृ- अन्वा^०,
 कर्द्द^०, दृ^० xx, दृ- अन्वा^०, दृ^०,
 वी^० xx, दृर्षी-क- सु^०, दृष्टे, *दृष्ट-
 *दृष्ट, दृष्ट- १अ^०, परवच^०, दृष्ट
 मान, ना- १अ^०, दृष्ट, दृ- १५^०,
 वर^०, इन्द्र^० xx, दृष्ट- १बेचल^०,
 *दृष्ट दोष- प्राप्^०, रिपु^०, दृष्टान्त-
 भूत^०, १दृष्टि- रूपम्^०, उभावच^०,
 १कृत्^०, एकर्ष^० xx, दृष्ट्वा १५^०,
 दृष्ट- कर्मन्^०, मन्त्र^०, दृष्ट-
 पवित्र^०, दृष्टपल- १सम्वा^०, दृष्ट
 दृती- सरस्वती^०, *देवतरस-
 विद्यमिन्^०, देवतर- देवना-
 √दिव् (परि) द, देवत- >
 देवन्ति- > *द्वैतव्यापन- दत्त^०
 देवर- १द^०, देवलक- चेत^०
 र^०, तस्वर^०, देवश्रवण- देविन्-
 √दिव् (परि) द, देशक-
 देहन- प्रष्ट √दिव् (परि) द,
 *द्वेष्य- चार^०, ३देह- देहन-
 √दिव् (परि) द, देहशब्द-
 शमील^०, √द्वै (लोपने) अ^०,
 उ^०, *३देह, ता- देवदृष्ट्या-
 √दिव् (परि) द, *द्वैतव^०-
 १अ^०, द्वैत्या- अति^०, अग्नि^०, प्र
 दोहस्- दोहिनी- प्रष्ट √द्वै
 (परि) द, द्वैतवन्त^०- १सवर्ण^०
 छ- दृष्ट- √द्वै (अन्) परि द
 √द्वै अग्नि^०, आ^०, २उद्^०, प्र^०,
 वि^०, सु^०, दृष्टान- नरय वाप्रीष
 ३३ १३ [पा- तिरस्वी^०] सुवि-

अमल^०, २अमित^०, अचित^० xx, *द्वैतव्य,
 *द्वैत- २अ^०, *द्वैतक- कर्मोपसं
 योग^०, *द्वैतत्- द्रोतन- *द्वैतनी-
 *द्वैतमान- *द्वैतव्य (>) वी-
 *द्वैतित- *द्वैतम्- सु^०, *द्वैतव्य,
 दृष्टम्- २उद्^०, सु^०, दृ- √दिव्
 (परि) द, दृष्ट- १उद्^०, १दृष्टि^०,
 दृष्टान्^०, दृष्ट^०, सोम^०, दृष्टिण-
 अनुप्रहिर^०, सु^०, दृष्टिणस्- सु^०
 १दृष्टव्य- १अ^०, अग्निहोत्र^०, अनुत्^० xx,
 *दृष्टव्य-प्रकपं- १अ^०, *दृष्टव्य प्रयोग-
 संप्रह- देव^०, दृष्टव्य शब्द- १अ^०,
 *दृष्टव्य सवर्ण- धृतादि^०
 √द्वै अ^०, अ^०, नि^०, परि^०,
 *द्वैत- *द्वैत- *द्वैतव्यपिता-
 काशिशतारयास्थान- तिग्नि^०
 *द्वै- अंत^०, √द्वै अति^०, अग्नि^०,
 अनु^०, कर्तु^०, कपोद्^०, अग्नि^०,
 अग्न्या^०, अभ्युद्^०, अग्नि^०, आ^०, २उद्^०,
 उदा^०, उ^०, नि^०, परि^०, प्र^०, वि^०,
 सम्^०, समत्^०, समग्नि^०, समुद्^०,
 दृष्ट- अग्रन्^०, रीच^०, ४त^०, दृष्ट-
 दृष्ट- अन्व^०, *द्वैत- *द्वैतव्य-
 *द्वैतव्यो- द्वैत^०, सु^०, *२दृ-
 १मित^०, शत^०, सुत, वा- १अ^०,
 *द्वैत, १दृ- वीत^०, वीतु^०, पृत्^०,
 सुम- अन्व^०, सुम^०, पटापि^० xx
 √द्वै अग्नि^०, दृष्ट- १अ^०, सुह-
 १अ^०, सु^०, नि^०, *दृष्ट, द्वैतव्य-
 द्या- *द्वैत- > च वा- १अ^०,
 द्वैत- १अ^०, १काम^०, १मद^०,
 *द्वैत साहस- रात्रन्^०, द्वैतव्य-
 १अ^०, *द्वैतव्य- १द्वैत- अन्व-
 सु^०, द्वैत- तैत्^०, १दृत्^०, १दृत्^०,

a) पृ १०३४, १३०० यत्र संख्यासप्त द । b) नाप । उष । पृ १३०० h नेष्टम् । c) धर्तरी
 क्षप् प्र । d) वष १ द । e) भाषायेषु दृष्ट । f) पामे पृ ११४ d द । g) = पाषाणकृत्- ।
 h) = जातिमेक- । i) दृ सस्य टि भूयात् । j) अन्व d नेष्टम् । k) पाणि मासि अत्रा, अत्र, स्त्री d
 टि चारितार्थम् । l) पृ १३१२ यत्र संख्यासप्त द । m) वा ३, ११ पराशर द ।

श्लोकश-भावन, सूप, श्लोक-
 तिल, द्वि, चतुष्ट, २वाह, *श्लोक
 रात- धृत, *श्लोक- भीष्म
 *द्वयस्- १अ, द्वयस- १हस्तिन्
 २-२द्वादशक- द्वादशन्- (परि) द
 दम्- गृह, १दक्षिण*xx, द्वार-
 १अ, अन्नागार, अतु*xx,
 द्वार्य- सदस्
 द्वि- १एक, चतुष्ट, त्रि, द्व, द्वा
 पददशादि, द्व-द्व- १अ, अन्वधी
 भाव, दवता*xx, *द्वन्द्व तरपुरप-
 विशेषण- १अ, द्वय- १अअ,
 अक्षर, नक्षत्र*xx, द्वयविन्- १अ,
 द्वयविश- प्रयत्नित, द्वादशन्-
 अष्टाक्षर, दशन्, प्रथम, १पृष्ठ,
 १पृष्ठ, द्वादश- १अअ, उपरम्य,
 एकादश, गर्भ, तद्, *रा, द्वादशी-
 आद्या, उभयपक्ष, १दृष्ट, कुण
 पक्ष, विष्णु, द्वादशको- पक्ष,
 द्वादशनामन्- वेद्यादि, *द्वादश-
 मेव- २- २ चतुष्ट २- २, द्वादश-
 रात्र- चतुष्ट, द्वादशसवस-
 प्रभाते, मास, द्वादशाह- १अ
 अमिजित, एवाह, गो, विद्रुक्,
 मार, निश्चित, संक्रम, सर्वजित
 द्वादशन्- एवादशित, द्वार-
 पाग ६, ३, १०८, द्वादशित-
 > १द्वादश-> *ती- द्वादशी
 द्विग- > द्वैगत- भाव-तीव
 द्विगु- अन्वधीपूर्व, अन्वधीभाव,
 एकादश, द्विगुत्तर- एक ननुदात,
 द्विगु- १अअ, तद्, त्रिगु
 पदात्ताद, १सम, द्विप्रहन-
 साध्यायुक्त, द्वि- (यथा) - १अ,
 १अ, १अ, पात्र*xx, *द्विज

सुग- दीप्त, द्विजोत्तम- गो, द्वि-
 जाति- १मत्त, द्वितय- १फल्गुनी,
 सहस्र, दित- पाग ५, ४, ३८,
 द्वैत- १अ, आत्रा, द्वितीय,
 वा- १अ, अतुष्ट, अति*xx,
 द्वितीयत्व- राध्यात्, *द्वि त्रि-
 चतुष्ट पञ्च-सवस- मास, द्वित्व-
 १अ, द्वित्व- (> *द्वैत- पा)
 पाग ५, ४, ३८, द्विद्वैत- (> त-
 एद्वैत, द्विधा > द्वैत- गुणित,
 १विधि, साक्षित, द्वैधी ✓सु >
 *भाव- १अधि, *द्वि प- तुग,
 गत, द्विप- > द्विपदा- १अ,
 एवदा, नित्य, *त, *द्वैपद-
 > द्वैपदो (व उ) मध्य- १अ,
 १द्विपद- उदत्, २द्विपद->
 १द्वैपद, *द्वि-पद- २एकपद,
 एकपद, *द्वि प्रवर- हल्लेप,
 *द्वि प्रभृत्(ति-उ)पसर्ग- १अ,
 द्विपदेत- अतष्ट, १द्विपिस्त-
 > *द्विपिस्त- पा ५ १, ३१,
 द्विमाग- पूर्णपक्ष, द्विमाग-
 गात्रा, *द्वि-योनि- १अ, *द्वि
 र्द- दिग्, गरिप, श्रीपृष्ठ,
 द्विरात्र- सुष्ट, द्विचन- एक-
 चन, द्विचन- १अ, अन्, द्विधिध-
 > द्वैविध्य- आकृति, द्विधावाम-
 परत्, द्वि > द्विपक्ष- प्र. ज,
 द्विक- १अ, द्विचन- १अ,
 अनुनासिक, २गुण*xx, द्विचन-
 निस्त, द्विजामत- पुरत्,
 द्वयन्तर, १- अन्तर, एवान्तर,
 एवान्तरा, द्वयन्तर-> *द्वयन्तर-
 मात्र- २- चतुष्ट १३, द्वयन्तर
 गृह, द्वय- सुष्ट, इयादि-

१अ, *द्वय(द्वि-वा)ध- एकार्य,
 २द्वयपसर्ग- १अ
 ✓द्विप प्र, वि, द्विप- एभान्त,
 अन्त, द्विप(व >)ती- ती
 द्विधी १७, २, ३२, *द्विपद-
 वृद्धि- विद्वप, *द्विपा-
 *द्विपाण-, *द्विपेय- १अ,
 *द्वि(ध>)दा-अम, द्वेप- १अम,
 द्विपत्*xx, *द्वेपण-, द्वेपस-
 *द्वेविन्- १अ, *द्वेपिणी-पुरप,
 २वसिष्ठ, द्वेष्ट- २वाद्यल
 २द्वीप- १अ, *द्वीप, जम्बु,
 मदिदी, १पुष्कर, १अ,
 २अष्टल, ३शाक, २शात्मति,
 श्वेत, सतन्, सिन्धु, द्वैपायन-
 ३अ
 *द्वीपिन- पाग २, ४, ३१
 ध
 १व- १अ, २ध- ✓धा (परि)
 द, ४ध- ✓धे (परि) द
 ✓धन् नि, प्र, धन- १अ, अन्त,
 अदत्पूर्व*xx, धनचित्- सर्वजित,
 २धनक्षय-> धानक्षय- गैतम,
 धारिकस्वापन, धनधान्य- सर्व,
 धनवत्-> १धनिष्ठा- २धन,
 *धन-विद्या- आचार्य, १धन्,
 न्या- १अ, १अ, धनु नू- आत्
 धनुस्- १अ, २अ, २अ*xx
 ✓धन् अतु, परिप्र, प्र, सम्
 *धन्व- लिष्ट, १धन्व-
 अविज, अयल, अतत*xx,
 धन्वि- २अ, २धन्व- २ध-
 न्यन्-> १धन्वन-, धन्वन-
 स्तोत्रान्तर, धन्वन्तरि- अति,

a) वे १ द । b) सार्धे वा परिमाणार्थे वा प्र । c) पत । d) तु पागम । e) =दन्त, पक्षि-
 प्रद । f) = १हस्तिन् । g) ३ १३२२ यदि सप्त्यासकेत द । h) ३ १३२७ यदि सप्त्यासकेत द ।
 i) २ वन स्थल गोष । j) = १धन्वन्, पतुम् । k) ३ १३२८ यदि सप्त्यासकेत द । l) अत्र 'p>०द ।

भरद्वाजः, १भैषज्य०

✓धम् अण०, अणि०, अमि०, आ०, २उट्, उण०, निट्, परा०, प्र०, वि०, धम०-
रारिम्, पठिम् नाटिम्, नासिकम्, पच्छिम्, सुधिम्, धमत्- धमन-
श्रमि०, धमनि- अस्ति०, १ह्रस्, १ध्म-
१ध्म- ह्रस्व०, १शह्र०, १ध्मा-
१धात- १धमान- धय० वैधौका
५३। १धर्म- लोम०, धर्प- प्रवृ
✓ध्व् (परि) द्र, १धव- वि०
१धव- स्तोत्रान्तक०, १धव-

✓धु (परि) द्र

✓धा अतिनि०, अतिसम्, अत्या०,
अत्युण०, अधि०, अधिनि०, अया०,
अतु०, अतुनि०, अतुवि०, अतुसम्, अन्त०,
अन्तु०, अन्तव०, अन्वा०, अवि०, अविनि०, अमि०, अमिनि०,
अमिनि०, अमिसम्, अतिरमा०, अभ्या०,
अभ्युण०, अवन०, अवा०, आ०, आसम्, २उट्, उण०, उपनि०,
उपसम् उपसमा०, उपा०, तिरिण्, नि०, परि०,
परिनि०, पर्यव०, पया०, पयुण०, पि०, प्र०, प्रथि०, प्रति०,
प्रतिनि०, प्रतिवि०, प्रतिसम्, प्रायव०, प्रयुण०,
प्रसम्, प्रा०, वि०, विनि०, विपरि०, व्य०,
व्या०, व्युपनि०, सवि०, सनि०, राम्, समन्वा०, समव०,
समा०, दध- १उटा०, दधत्- अट् आसिण् ३, ५ ७ २५१ [त्-
अट्] दधत्- अट्, १२ध- गर्भ०, २भाण०, १धस्- ५धत्.

पुरस्, रेत्स्, २ववस्, वर्चस्, १शुमिन्, धा- आयुत्, निर्यत्
विने०xx, १२धाववे, १धातवै
धातव्य- १धातु- १अ०, अन्तर्, अयुत्xx,
१धातु प्रातिपदिक- प्रथय समासा-तोदात्तो(त-उ)दात्त-
निवृत्ति-र्य- १लोण०, १धातु- विवि० पावा ३, २, १८०, १२धातुम्
धत्- पुरत्, १धात्री- १लोण०, १धात्रेय- २शुनन्, धात्र- जामिण०,
१धातु(क० >)का- १धान- अति०, १उट्, निविट्xx,
१धात्री- २आज्य०, गोपाल०xx, १धापन- १धापयत्- १धापयिष्या,
१धाप्य, १धाप्यमान- धामन्- १द्वन्, १एक०, शिव०, १मधु०,
रतन्, सु०, सुवर्, १धाम्नी- अशिरत्, आदित्य०, १धाय अन्तर्, १धापक- १धामम्, घादस्- गो०,
१जव०, विश्व०, शयु०, १धाविन्- धाव्य- १धाव्यमान- पुरस्, १धाव्यै¹¹ पाए २, ६, २०१,
गाए १, ९, ७७, वाए १२ १, १धि- अन्तर्, इण्, उट्xx,
१धित- २मेम०, १धुण्, १धिति- २नम०, मिन्, २यन्, १धुण्, १धिव्या,
१धिव्यत्, १धिसित- १धिसु- १धीयमान- अत्तर्, १धीयन्- सु०, १धे अत्, धेय-
नामन्, २भाण०, १धुण्, १हित- १हितवत्, १दिति-

धाना- २असत०, अन्पहत०, अयुण०xx
धान्य- १अ०, अत्रार०xx

१धार- २धार- १धारविष्यत्-
✓धु (परि) द्र, धारा- अति०, उट्, १उट्क०, १उट्xx, धारा-
अत- १अ०, धार्य- धृति- (परि) द्र, ✓धाव् (पती) अति०, अया०,
अतु०, अणि०, अमि०, अमिनि०, अवन०, आ०, उण०, नि०, परा०, परि०,
प्र०, प्रति०, प्रत्या०, वि०, सम्, रामा०, धावर्- १पायन-उटधि०,
दूर्जरोषण०, १धाप्यमान- ✓धाव् (ह्रस्व) प्र०, वि०, व्युट्, सम्, सप्र०, १धाव- इट्, १धानन्-
दन्त०, पाव०xx, १धावमान- धाव्य, धौत- मांस०, मौन०,
धौतपाद्- १अ०

२धव- धाम् ✓धु (परि) द्र
१धार प्र०, धिय- ✓धौ (परि) द्र, १धिया हि या०
आधौ ६, ३, ११, धियणा- > धिष्य- १अ०, अमि०, अचर०xx
धिष्य- १अ०, १दधिण्, प्रगा- रत्, १मैत्रयण०, होत्, धिष्य-
निवपन- धामोप्र०, धिष्यवत्- १अ०, धिष्योपस्था- सचर्
✓धी आ०, नि०, परि०, प्रति०, सवि०, १धिय- दे।, दे।धीम्, १धी, > १धी- इट्, १नागा०, १ण०, वदु०, राम्य०, सु०, धोर- अति०, गर्भ०, १धीत- धीति- १अन्, १२धी-

a) कर्त्तरि राज् वा श वा प्र । b) कर्त्तरि कृत् । c) धपति (अ ८, १४, १) इत्यस्यादाश्रयणम् ।
d) ध्यप (आवि, द्यता) । e) पृ ११११ यनि साट्वातकेत् द । f) =एणभेद । g) समा अ १०,
१६, ७ धौ १८, २, ५८ इयुक् इति पाठे । h) अवि कर्त्तरि वा इट् । i) रराधे प्र । j) धुमर्धे रवे प्र उय
दाि पाठ २ यनि लोष (द्र पाण) । यदा लुटि उउ १ द । m) अषिकरणादर्थ वि प्र । o) पृ ११४६
यनि संलपातके १ द । p) पाठ । तथा धौ २, ५४ धिष्येत् इति । लोष वैर १ ७०७ द । q) पृ ११४८
यनि साट्वातकेत् द ।

धा०, धीयमान-, धीयन्- ✓धा
 (परि) ६, धीयत्- मूर्धनिसिच^०
 ✓धु, धू ३९°, धमि०, धव०, धा०,
 २२६°, निद्, वि०, +३धव-,
 धवन-, धरिष्- तुतीम०, धृष्टि०,
 यथा०, +२धावन्-, +धावम्, +धु^१-,
 धुनि, नी- हृद्, धुन्वद्- १३०,
 धुवा (न>) ना-, धृत्, +धून्-
 पा ८२, ४४, +✓धूनि, धून्व-,
 +धून्वद्-, +धून्वत्-, धून्वत्-
 १३०, धून्वान-, +धूप, +✓धुधू
 वि०, धुद्- २३३०, ३१०, १३३०, ३२५०,
 ३२५०, +धुर- १६०, प्र०, यथा०,
 सर्व०, सर्वतम्, सु०, धुधे- वौ
 आपथी १८, ४, १४^b [धं- गो०,
 १३३०] धुरि- > +धुरि-
 लोचन- नौ धम २१०, धुप-
 ✓दुह (परि) ६, ✓धूप धा०,
 २२६°, उव०, धूपन- धैव०,
 १३३०, +धूपवत्-, धूपित,
 ता- दु०, धूप- १६०, २३३०^०xx
 धूम- १३०, २३३०, धूमनि
 ज्वलन्^०xx, +धूम स्वस्- दीप्त०,
 +धूम सप्र (म >) ना- वि०,
 ✓धुमाय २०, १धूम- ताप्र०,
 १धूम, ३३३०, +धूम-कृष्ण
 नील पाण्डुर-वर्णका- ऐन्द्राकुव०
 ✓धूर्व > धूर्त, तां- १३३०,
 कथिना०, १३३०, +धूर्त-कारिणी-
 कथिना०, धूर्ति- १३३०
 ✓धृ धन०, धोद्, धव०, धा०,
 उव०, नि०, निद्, प्र०, प्रत्युद्, वि०,
 ध्य०, धम्, धरत्- धलम्-

पयस्, अश्रुति०, कृष्णाम्बर^०xx,
 धरण- १नाम०, धरणी- पद्, १०
 धर्तृ-, धर्ता- +र्तृमि वीथी २,
 १० २०, हिप २, १०, ४०, २धर्म-
 -र्तृम पाए ३, ४, १८, -मैपु अप
 ७०, १०, २६ [मं- १३०, अग्नि०,
 अग्निहोत्र^०xx], धार्मिक- १३०,
 १देव०, धर्म (क>) ना- आनेय०,
 धर्मकर्मन्- निरुत्, धर्मविशेष-
 नामन्, धर्मकार- इतिहास०,
 पुराण०, २वेद०, २साध्व०, +धर्मा
 (मं-आ) नार्थ- धूमन्तु०, +धर्मा
 (मं-आ) धन्- धत०, धर्मानुग्रह-
 १३३०, धर्मिन्- ज्ञानाय०,
 धर्मन्- मं निम् ८, १२ २७,
 -धर्मण आपथी ६, १९, १, माथी
 १ ६, २, १४, -०मंण आथी ६,
 १२, १२४, माथी ८, १०, १६,
 आपथी १३, १८, २३, वीथी ८,
 १८ ६०, माथी २, ५ ४, १३^b,
 हिथी ९ ४, ५८^b, वीथी २३,
 १५४^b [द्- १३०, अग्निनाशिन०,
 आधम०, १३३०^०xx] +२धार-
 १३३०, तुला०, ३धुवा०, +धारी-
 लावा०, धारक- नामन्, १धृत०,
 स्थल०, धारण- १३०, धाम्बर०,
 धापाय^०xx, धारणा- १३३०,
 ३३३०, १नाम^०xx, धारय- स्वर्ग०,
 धारयत्- -२२ आपथी २, १५,
 ४, धारयमान- न माथी २,
 १५ ६, धारयित्, +धारयिष्त्-
 धारित-, धारिन्- वडवकेयू०,
 वडवक^०xx, धारिणी- वीर्य०,

धार्थमान-, +धृत्- स्वर्णही०, निव०,
 मनुष्य०, धृत्, ता- १३०, धन०,
 तुला^०xx, धृत्गद्- वाएदु०, धृति-
 अति०, अतिजगती०, अष्टि०, २कृति०,
 १धन^०xx, +धार्थ- अतिजागत०,
 +धृत्विद्- लंम०, +प्र^१- ३कु०,
 २मही०, ध्रियमान- १३०
 ✓धृष्ट ३३०, वा०, २२६°, १०, प्रति०,
 वि०, +धर्ष-, +धर्षण- दुर्, १३०,
 +धर्मणोय- १३०, +धर्म्य-, +धृष्ट-
 रेतम्, १३३०, २विद्वहण०, धरि०,
 स्वाध्याय०, साधुभ०, धृष्टिल- १३०,
 +धृष्टे, धृष्ट, धा- १३०, मेहे०, धाम्बर०,
 धृष्टि-, +धृष्ट्य, ध्या-, +धृष्ट्यमान-
 +✓धृ^१ पावा कवा पर वडोहानी
 ✓धे, धयेयु माथी ३, १, १३^b [धा०,
 निद्, निर०, प्र०, प्रति०],
 +धधे- स्तन०, धय- खरिम्, १३०,
 धदिम्, नाडिम्, नाडिम्, १३३०,
 मुधिम्, मृत्युम्, धुनिम्, लनम्,
 धयत्-, १धातवे०, १धातुम्,
 २धान- धुरा०, २धी (त>) ना-
 १३०, पिशाच०, +धीव, धे ✓धा
 (परि) ६, धेना- निष्ठा०, धेतु-
 पा २, १, ६५ [नु- १३०, अग्नि-
 होत्र^०xx] धेतुम (व्य>) व्या-
 पावा ६, १, ६९, धेन्यदुहली०,
 धैयत्- ऋषभ०, पद्म०, धम-
 ध्मा-, धमान- ✓धम् (परि) ६
 ✓धै अतु०, अग्नि०, साम्या०, धा०,
 नि०, प्र०, +ध्य [> ध्य]- ६,
 +ध्या-, ध्यात- दुर्, ध्यान्-
 एतद्, धुस्म०, प्राणावायव०, १३३०,

a) कण्ड ३ प्र । b) धमि ३ ४२८ f द । c) दस उव = रोचन (तु ३३ ११६ ६२) ।
 d) कृति ३२ । e) धमि ३ १८४८ d द । f) 'मैयू' इति पाठ ? यनि व स्थू इति च शोध (तु
 Old, ३ ७३१४० च) । g) यनि स्वल-शोध । h) एतेषु स्वलेषु -मंण > यनि द । i) परस्पर धमि ।
 j) कृति विनिर्ध प्र उले (पा ३, २, ७५) । k) धै २, ६५५ k द । l) ३ २८९० p द । m) धमि ३
 १०६ ६ द । n) ३ १२६० यनि कण्डपाठके द । o) पावा ६, २, ७० > यनि द । p) धेन्यदुह > यनि द ।

*ध्याय, ध- √पृ (परि) द.
 √घ्रि > +घ्रि- १देव°; √धु >
 धुव, धा- १अ°, अप्रयत्, उ०यत्, °,
 नरर्याली°xx, १ध्रीव्य- १अ°,
 *धुवि°- नि°, धोक्ष्यत्- √दुह
 (परि) द, √धोस् वतु°,
 धा०, धमि°, धव°, धा°, उ०°,
 परि°, प्र°, वि°, ध्यस-, +ध्वसमा-
 (न>)ना-, ध्वंसवत्-, +ध्वंसिन्-,
 +ध्वस्त- दीप्तधूमरज्ज्व°

ध्वज- जे अ०७०^१, ६, १०^२, ११, १५^३
 [°अ-अभि°°, इन्द्र°, इन्द्रश्रील°°xx]
 √ध्वन् > *ध्वनन- वर्ण°, ध्वनि-
 १वेद°, ११ह्, १रा०, १सामन°,
 ध्यान- १उवाचु°, उम्°, १ध्वान्य-
 बालमानसप°, ध्वाङ्क्ष- स्व०°
 √धु > *ध्वन्व्य-, ध्वयं- १अ°

न

१न नैताथो २०, ४°, *नकिर पाग
 १, ४, ५७, नास्ति- > नातिथ-
 कुहक°, तस्वर°, गडाहृत्°, स्तेन°,
 न- न् उच् ५, ४ [°अ- अथ°,
 लृवर्ण°xx], नकार- १अ°,
 उकार°xx, नकारान्त- १अ°,
 नलोप- दीर्घ°, नान्त- गो°

√नश्, नश् ऋच्छा°, अभि°, उ०-
 सम्°, प्र°, वा°, *नशन- स्वप्°,
 *नशि°, १नकुल- १वाक°,
 शृरसात्°xx, नक्त- उपासा°,
 नक्षत्र- निचुदाह°, विपुमिष्ठा°,
 *नक्ता (उ-अ)कान-, नकाशिन-
 १अ°, नक्त- १चट°, तिमिर°

√नक्ष प्र°, नक्षत्र- अग्नि°, अग्ना-
 धेय°, शतु°xx, नक्षत्र-(क)- नक्ष०°,
 *नक्षत्र-जीवक- श्वेद · १°,
 *नक्षत्र विधि- १शुभ°, नक्षत्र होम-
 सर्व°, नक्ष- १अ°, १अङ्ग°, धा°xx,
 *नक्ष चिउम्न- १अ°, १नग-
 तिमिर°, १नगर- नन्वा°,
 गन्धर्व°, १निरि°, प्राग°, १नर°,
 नगरी- नवति°, पूर्व°

नक्ष, शा- १अ°, विहत°, हुतम्
 ह°, नक्षिका- १अ°, *नक्ष-
 कर्ण- वा ३, २, ५६, *नक्ष-
 भविष्णु-, *नक्षक- वा ३, २,
 ५७ [°क- १अ°], नक्षिकेत->
 नाविकेत- १न°, सापिन°, *नक्ष-
 तृप्°, नक्ष- १अ° वहु°, *नक्ष-
 कर्मधारय-, नक्षूर्ध्व-, नक्ष-
 समास- १अ°, √नद् > १नट-
 श्वेद · २°, मिशु°, १नड-शेष्या°,
 सुट°, *नड क- पूर्व°, *नडहद-
 १डुल्ल°, √नद् उतु°, अ०°,
 नि°, परि°, प्रति°, वि°, सम्°,
 नद- धार°, नदी°, १पन्द्व°, पुस्°,
 महत्°, नदी- अन्वार्थ°, धार°,
 १विरि°xx, नदीतर- अग्रोत्सर्ग°,
 वगहवन्°, *नदी तरण- १प्र°,
 *नदी-वाहु-तरण- ऋमिलु° न°,
 नदीशब्दव(ह >) ह्- *नदी
 समास- ऋद्धि°, *नदी सीस-
 लीस°, नाद- १अ°, ईश्व°,
 २कौब°xx, *नादध्व- १नादिद्वे-
 १पुटु°, विहनाद°, *नादिन्-
 ३अर°, √नन् श्मि°, धा°,
 परि°, प्रति°, प्रत्यम°, नन्द-,
 *न दन्-, नन्दन- पाण्डु°,
 राजन्°, *नन्दिद्व-, नन्दिद्व-
 धागत°, १दुमार°, गेहे°, *नन्ध
 १नन्द्यावर्त- अग्नि°, वरवीर°°
 १नन्द्यावर्त- प्रतिसर°, नपात्-
 नत् वा ३, १६१ [°अ- स्व्या°, तद्व°,
 ३अत्], नपुंसक- १अ°, १शुद्धन्द°,
 पुस्°, १लवण°, छी°, नपत्-
 ३अत्, अषाम्°, ३तत्, महत्°
 √नम् प्र°, नभस्- ऊर्ध्व°,
 छीरोद°, १नभ- > नभ-शव°
 १न मि° वेधो २१, २ ७, √नम्
 अ०°, अभि°, अभिसम्, अ०°, वा°,
 २उद्, उ०°, उपाव°, नि°, परि°,
 प्र°, प्रति°, प्रलुप°, वि°, विपरि°,
 सम्°, १नव, ता- १अ°, इन्द्र°,
 न्यायोग°, स्वप्म्°, १नव-, नति-
 १अ°, नति(क)- हि°, *नम-
 वृ°, *नमत्- १अ°, *नमन- वृह°,
 वृ°, १क्ष°, *नममान-, *नमवत्-,
 *नामव्य, नमस्- प्रति°, नमस्
 √ऊ > नमस्कार- अन्वतरत्म्°,
 ३अरन्°, निर°xx, नगरहृत्-
 सुराशु°, *नम्भ, *१नाम्भ- निर°,
 *नामवत्-, १नामिन्- अ०°,
 १नामिक-, *नामि-दीर्घ- नपु
 तक°, नाम्युपप- १अ°, *नासु-
 *नाम्भ, नयितुम्, नयित्वा √नो
 (परि) द, १नर- १देव°, १नर°,
 नपमान°, नरे- १देव°, नरक-
 पपक°, महत्°, स्वर्ग°, नर्तिन्-
 √नृ (परि) द

a) वै १ द । b) यनि स्थल शोध । c) पाठ १ मा इति शेष (उ ०) । d) निर्दिमफिरो निर्देत । e) कर्त्तरी ह्व । f) = अति छिद । g) वृ १३०३ यनि द । h) वृ १३०३ यनि. ताष्या- सदेन द । i) कर्त्तरी यनि प्र उस (वा ३, २, ७५) । j) = इत् विशेष- । l) पयो वै १, १०६६ j द । l) नोपार्थ वृ १२८४ p द । m) गा । n) धम् प्र । o) वृ १३०७ यनि उ०वातवेन द । p) नाय, व्यप ।

√नई, नई- अय°, नि°, नईव्-;
 *नईव्- गोष्ठे°, *नई, *नमी-
 रिवाह°°, नमीदा- > *नमीद-
 सहागिरि°°, *नमीन्- १अ°,
 महत्°, २नल (यथा)- निमिर°°,
 मुष्टि°, शरत्क°°, १नव- अयि°,
 पुनर्°, पुराण°, पूर्वराज°°, नदत्°,
 *नव-मुमुद- तिमिर°°, *नवश्राद्-
 सूतिका (का-अ)श- लघुन°°
 देनय- नदत्- √नु (परि) द्र.
 नवन्- १पय°°, पदशब्द°, १दाय°°,
 *नव- त्रि°, त्रिद्व°°, *नव व-
 चदत्°, नवति- १अष्टव°°, १एक°,
 एकीन°°x, *नवत- चदत्°, नव-
 दशत्-> नवदश- सप्तदश°, नव-
 प्रवा (द >) दा- दा°°, नवम-
 शर्ष°, अदमन्°, अष्टम°°x, नवमी-
 अश्वय°, अश्या°, सुतीना°, महत्°,
 १नाराय- पद्मराज°, नवर्ष- सप्त-
 र्ष°, नवमर्ष- गर्भं जित् ५, १२
 ५, नवसप्तदश- सर्वशोभ°, नवार-
 त्तिक°, नवाह- अतिराज°, नवकौ-
 शास्त्री°- (> नामकौशाभ्येय-)
 √नशु (अदर्शने) अयि°, अशु°, अय°,
 अमि°, अशु, निदु°, प्र°, वि°, *नशन-
 नश्यत्- १अ°, नष्ट, एा- १अ°,
 अतिपन°°, १अशु°°x, नष्टरूप->
 *नष्टरूपी°- नाशिराह°, नष्टि-
 नाश- १अजा°, अति°, १अचरिण°,
 दुर्°, दू°°x, *नाशक- नाशन-
 १अचि°, कृत्या°°x, नाशनी-
 अशुकी°, क्षेत्रिय°, परिपन्थिन्°,

*नाशम् १श्रीव°, *नाशित-
 नाशित्- सर्वकर्मण°, नाशिनी-
 अय°, उलासकन°, दुःखम्°°x,
 नाष्ट°°- १अ°, नशि- √नशु
 (परि) द्र, नशु- ३राज°, २रुज°,
 १चक्षुम्°, *नस- १उह°, ३राज°°
 *नसि! आपमं १, १२, १, वीष्ट ४,
 २, ६, दिष्ट १, १६, ३
 √नष्ट अयि°, अयिष्ठम्°, अयि°,
 अयिष्ठम्°, इव°, अा°, २उद°, उय°,
 उयनि°, उयम्°, उयोद्°, नि°, परि°,
 पर्या°, प्रति°, प्रत्या°, प्रायुष°, वि°,
 उष्टु° समुष°, नष्ट- १गिरि°, चर्मत्°,
 जात°, तिर्यच्°, *नष्ट- २इशा°,
 *नहन-, *नी-, *नष्ट, *नष्टत्-,
 नष्टमान-, नाह- १अप्र°, अनानि-
 काङ्क्षित°, कनिष्ठकृति°°x, *नाष्ट-
 नाक- त्रि°, नाग- आर°°,
 तिमिर°°, १दिव्य°, दिष्ट°°x
 *नागपुर°- अहिच्छत्र°, नाड। व।-
 १पुत्र°°, नाडी- १दर्भ°, पत्र°°x
 *नाडा°- अयुत्°°
 √नाघ > १नाघ- १अ°, जगत्°,
 ४न°, नादयत्-, २नादिन्- √नद
 (परि) द्र, नाघ- २वयत्°, यदु°°
 नाना पृषत्°, नानात्व- कल्पन्त°,
 ५यु°, मन्त्रार्थ°, महत्°, १सामम्°,
 १नागादेवत, वा।, २नागादेवता-
 निर्गत° दि°, मन्त्रोक्त°, *न ना-
 मन्त्रोक्त देवता- बसादि°, नानार्थ-
 १अ°. नानाहीन- नेष्टु द्विभौ
 १७, ६, ५°, नाषित- अयम्°,

पृथिवीवाल°°, राग°°, नापितृष्ट-
 १इत°, *नाभन्- ऊर्ष°, नाभि-
 शम्भु°, अयस्ता°, अराच्°°x,
 *नाभ- १पत्र°, १मुर्ष°, द्विरणव°°
 नामन्- १अ°, अष्टगुलि°, अति-
 रेश°°x, *नाम- गो°, नाम (क)-
 आशित्°, नामिका- १अ°, तद्°,
 नामकरण- शत्रुसंगमन°°, गर्भा-
 धान°°, जातसर्वम्°, निधाय°°, हुत°,
 *नाम-गृहीत- १अ°, नामगोप-
 तद्°, प्रेत°, १२१°, नामग्राह- ४अ°,
 नामधातु- लुपु, नामधेय- अवि-
 ज्ञात°, १आप्य°°, १यम्°°x, *नाम-
 धेय-प्रहण- प्रवर°°, व्युत्पत्तेद°,
 *नाम रक्षण- सर्वाधान°°, *नाम-
 संघा- १अ°, नामयत्-, नायुक्-,
 नाय- √नम् (परि) द्र, नायन-
 नायत्, नाविद्-, नाय- √नी
 (परि) द्र, नारद- लुम्बुह°, स्वर्ण°°
 २नारायण- १उत्तर°, १वर°,
 शुक्ति°°, नारायण- १अ°, १एक°,
 प्रह°, द्वि°, नारिकेल- उमुम्भ°°
 १नारी- रो बाध २ १२१°°
 नार्भेय- *नालिङ्ग- लघुन°°
 नाघ- नी- (परि) द्र, नाघकौ-
 शास्त्रेय- नवकौशास्त्री- (परि)
 द्र, नाव्युदक- नी- (परि) द्र
 नाशक- प्रम् √नशु (अदर्शने)
 परि द्र, १नास, सा- ३आज्य°,
 १आर्य°, १अर्थ°°x, नासाम-
 नूर्ध्व°, १नासिका- अयु°,
 अशुत्°, उरुत्°°x, १नासिक्य-

a) वैप १ द्र । b) = देव विषय- । c) = नमै । d) ५ १३७१ यनि सव्यासकेत द्र ।
 e) ५ १३८१ -दा> यनि द । f) कय वा उदितार्थे हित वा । g) ५ २१३८ व द्र । h) नाव
 (छन्दोविशेष) । i) अत्र उरुत्वा चेष्टा । j) पार्थे सिच्- > सिच् भाट्ट २, ३० ९ टि द्र । शोध ५ ४४६ छ
 द्र । ५ २०४० b चेष्टम् । k) = श्लेषि मेद । l) ५ १३८६ यनि सव्यासकेत द्र । m) ५ ४७१
 लक्ष्मी इति चेष्टम् । n) नाप, (स्वकार-भेद- [नामकरण]) । o) सवा, मै १, २, १० नारि इति पार्थे ।
 p) अयं व्युत्पत् ।

१अ°, ५गठप°, १सोप° xx
 शनासिका-> शनासिपय°- रत्न-
 गिरि°, नाटा- √गर् (परि.) द्र
 नि/कम् > निष्कामन- कर्त्
 निरर- दृ°'सो', उगत°
 नि/कप् > निरप- रत्न°, *नि-
 शप- १अ°, *नि-नापम् १अ°,
 द्विरप°, निरया- १समया°
 *नि/काश् > नी (< नि)-नाम-
 १अ°, ५दगनु°, ५चौर्ष्व°, १अधु°
 नि/रिन् > *नि-केठ°- १अ°,
 चठ°, निरुतन- १अ°, अरगप°,
 श्रुति°, ५भृत्°, श्रुत्यागार°, श्रुत्या-
 गा- छ°, नि/रु > *नि-रुत्-
 १अ°, अतिपन्न°, नि/रुत्
 (छन्दे) > *नि-रुन्तन- १अ°,
 देशम् २°, नख°, *निफोत°-
 रायमातृणा°, √निध् ३प°, वि°,
 *निक्षम-, *निक्षे, *नि, नीक्षप
 नि/क्षिप् > निक्षिप्त- १अ°,
 निक्षेप-> *निक्षेपो (प उ) पनिधि-
 क्तागत- ४अ°, नि/रुत् >
 *नि-रुत्- २महो°, विराग- १अ°
 निगड- १अधु°, नि/गद् >
 निगद्- १अ°, अन्वाव°, पञ्चु°,
 गागा°, सृत्°, स्त्री°, *निगरो (व
 उ) पद्म प्ररुपद्म- अष्टावाक°
 नि/गम् > निग- सवा°, निगम-
 धरतिक्षिपति°, देवता° xx
 *निगर°- सत्पाद°
 नि/गुप् > निगुप्त- १अ°, सु°
 नि/गृह् > निगृह- १उपल°,
 विद्याम्ना°, सुष्ट°, २वर्ष°, व्याधि°
 नि/गृ (निवारणे) > *नि गीर्ण-

२अ°, नि/घृप् > *नि-घृह- १अ°
 नि/घा > निघा- -मेन योषी १,
 १८:८^२, २० : १५°, नि/घि
 (चन्दे) > निघाय- १गिरि°,
 निघप- १अ°, अर्थ°, १धन° xx,
 निघिन- पूर्ण°, नि/घृत् >
 निघृत्- अति°, १वाद्°, निघृत्-
 घृती- उपरिष्ठा°, √निघ्
 अघिनिर्°, अन्व°, अघ°, निर्°,
 प्र°, प्र ५१°, प्राव°, वि°, सम°,
 निम- १अ°, *निज्य, *निर्-,
 *निघृ-, *निजक-, *निजव- वाद्°,
 १मुञ्ज°, * निजित-, *निजप
 नितम्- १गिरि°, चम्°
 *निगुण्डि- शठमर्षण°, नि/गुद्
 > निगोद- अघि°, नित्य- १अ°,
 अरण्य°, अर्थ°, इन्द्रय° xx, नैषक-
 ल°, नित्यकर्मन्- उष्णोपासन°,
 र्ताध्याय°, *नित्य-धारि- अग्नि°,
 निर्यसतास- १अ°, √निद्, न्द्
 अति°, *निन्द- १अ°, निन्दा-
 १अ°, कक्षाकिटाप°, कृतात्° xx,
 निन्दित- १अ°, व्यापित°,
 १शिट°, *निन्दित-वर्मा (मं-थ) म्वा-
 सित्- नडाहव°, नि य- १अ°,
 नित्य°, *निर्दा- १अ°, *नि/दिश
 नि-नेद- सपद्°, नि/दश >
 निन्दन- आर्षण°, यन्था°, धुति°,
 १सत्°, निद्रा- अति°, २वद्°,
 वि°, १सुप°, नि/घन् > नि
 घन- १अ°, अलर°, अथार°, अने-
 वाधर° xx, *निघन स्वरित-स्य-
 १अ°, नि/घा > निघाय- १अ°,
 १अधु°, अग्नि° xx, *निघानी-

गर्ण°, निघाय १अ°, निघि-अग्नि°,
 अयत्°, १तपम्° xx, १भित्त-
 १अ°, सुष्ट°, १२२°, १२४°
 *नि/घाप् (गती) > नि-घायम्,
 नि-घायमान-, वि घायपद्- १अ°
 नि/नद् > निगद्- छुत्तुर्गुभि°,
 घण्टा°, इन्द्राघण्टा°, शङ्खवर्ष°,
 सर्ववर्ष°, नि/नद् > निन्द-
 म्बुद्ध°, निन्दैर्-
 नि/नी > निनयन- १आप्य°, वाग्°,
 स्वया°, निनीपत्- प्रम् √नी
 (परि) द्र, *निप- अकै°
 नि/पत् (गती) > निपतित-
 वानोत् न°, निपा- अन्मुला°,
 उपसर्ष°, १धातु° xx, निपातन-
 अन्°, अन्तोदात्त° xx, निपातित->
 *निपातित-जानु-, *निपातित-
 जानु(-क)- १अ°, नि/पद् >
 निपद्यमान- १अ°, नि/पा
 (गने) > निपाद- १२२°, प्रतिमा°
 *नि/पीह > नि पीहन- रोग°,
 नि पीहित- राहु°, निपुण- १अ°,
 १धुमार°, पूर्व°, देवाय°, साधु°
 *नि/पू > नि पवन- १अधु°
 नि/वष्, म्बु > निवद्ध- १अ°,
 सुभाशुभ°, *निवन्धन- अगाधि-
 कालसमय°, कर्मन्°, तत्तवाल°,
 २नारी°, प्रहरण°, स्त्री°
 १निवन्धन-नि/वुष् > *नि-यो
 धन- सुभाशुभ°, १सुप°, नि/वृह्
 > निवर्द्धण- १सुप°, सर्वरातु°
 *नि/मा > नि म- कपोप°, उद
 धिनी° इ°, उपा°, श्रोत्रव° xx
 नि/मृ > निमृत्- अ°

a) = देस विगप । b) = निरुतन । c) अर्थं व्यु वत् । d) माप । e) = साम-विरेप- ।
 f) = प्राण- । g) पृ १२५८ इ 'सवा थापयो ८, १६ ३ अक्त्रेण इति पाठे' इत्येव द्र । उमपत्र जि इति पाठः ?
 वनि शोष (द्र ५ १५ १) । h) पृ १०२१ सत्य वि इति नेष्टम् । i) व्यप । j) वे १ द. । k) निनि >
 वनि द । l) पृ १४०९ वनि सत्वावधेत द्र ।

*नि/भृञ्ज् > नि-भृष्ट, घा- १अ°
 नि/मञ्ज् > नि-मज्ज- लृट्°,
 *नि-मञ्जत्- धनमार्°, निमज्जप
 [उव]°, निमद्- उपलु°
 नि/मञ्जि > निम-ज्ज- २प्रधाहण°,
 १विधि°, निमित्त- १अ°,
 अन्त°, अग्रस्त°, अग्रमनेपद°xx,
 नैमित्तिक- १अ°, २काम्य°, जाति°,
 शान्तिक°, निमित्त(क)- प्रदो
 दय°, मातापितृ°, *निमित्त त्व-
 आदिशेष°, निमित्तशब्द- एते-
 दिष्ट°, नि/मिप् > *नि मिप्-,
 १निमिप-, निमिपत्- १अ°,
 निमेष- १अ°, दधि°, निमुष्टि-
 १दिष्टि°, नि/सृञ्ज् > निमालन-
 पाणि°, २प°, निमृष्ट- १अ°
 निम्न- १अ°, २बहुल°, ३बहुलु°,
 गन्ध°, निस्तारण°, ४ठ°, *निम्नो-
 (स-उ) शब्द- अति°, निम्न-
 २अरुठ°, १अवै°, विभेदक°,
 १रुठ°, विभीनव°, नि/यम्
 > निपत्- १अ°, अराम°,
 १एक क्षर°, १दशाक्षर° लृट्°, निपत्
 त्व- स्वरवर्षी° लृट्°, *निपत्ता(त
 व) क्षर- *निपत्तो(त-१उ)दक-
 *नि य त्- > °-सृष्टक- १अ°,
 निपत्- १अ°, अनन्त°, अनय°,
 उर्ध्व° वानम्°xx, नैपथिक- माह-
 रथ्य°, *निपमथन्- १वृत्त°, नि-
 /यु > निपुत्- उक्त्, निपुत्-
 दौर्बन्ध°, नि/युञ्ज् > निपुत् फा-
 १अ°, १काम° लृट्°, निथोम- १अ°,
 उद्धरीण°, उभयेज्या°xx निरोज्ज-
 उपाहारक°, परिव्ययण° १अ°,
 शाला°, सदान°, नि/अञ्ज् >

निरष्ट- महर्°
 *निरञ्ज्- वगलृट्°
 निरञ्ज- धोक्°, नि/रम्
 निरा- गायत्रीपत्°, ध्यान°, धृति°,
 पद्मनव°, सवर्मा°, मेला°, निरय
 /सो > *निरयसा- १अ°
 निर/अस् (क्षये) > निरसन-
 छदन°, वृण°, रौद्र°, निरस्य
 १अ°, निरा/रुह > *निरा-करण-,
 निराकाण्यु- निराकृ- > *निरा-
 १अ°, निराकृति- अन्वयसादिन°,
 पुराणादि°, *निर्- आ/दिम्
 > निरा दिश्य १अ°, निर/ईञ्
 > *निर ईञ- सूर्यवर्च°, नि/रुप्
 > निरुह- १अ°, निरोध- १अ°,
 कर्म°, पशु°, १चक्षुप्°, निरोधट-
 १अ°
 नि/रुप् (रुप-) > *निरुप १अ°,
 निर/ऊह > निरुह- १अ°, निर-
 /रु > निर्मूति- अदिता°, मध्य°,
 नैकत्व- छेदन°, मध्य°, रौद्र°,
 नैकत्व- प्रादव°, नैकत्व(त्य ङा)
 दि- °, २या(त्व-आ)वन्त°, *निर्-
 ओजस्- > *निरोजस्त-
 १अदि°, निर्गन्ध- निर्लेत°,
 निर/गम् > निर्गत- >
 *निर्गत दशाह- १अ°, निर्गतन-
 कक्ष°, योनिरुह°, *निर्गुण्ड-
 निम्न°, यन्त्रवृ°, *निर्/घुप्
 दि घोप- कलाजुषीणा°, अरुति°,
 उदपिजल°, गीत°, गेवादि°, वृक्ष°,
 मेघदुर्बन्ध°, निर/जि > निर जि-
 (त >) आ- अन्धारा°, निर/ञ्हा
 > निर्माय १अ°, निर/णम्
 निर्णाम- पशु°, निर/णिञ् >

निर्दिष्ट- १अ°, ३रफ°, १वारि°,
 निर्दिष्ट- पून°, चन्द्र°, नाभि°,
 ३वर्ष°, *निर्गत- चैल°, रज्जु°,
 पत्र°, *निर-नेत्र- १वृत्त°, परि-
 मार्जन°, वायु°, शानी°, निर/णी >
 निर्णय- चार्ण°, तद्विधि°xx
 निर/रुद् > निर्गोद- ब्रह्मज्ञी°,
 *निरणोदन- एनम्°, निर्देश-
 शा- १अ°. निर्देशाह, हा-
 १अ°, निर/वद् > निर्दोष-
 शम्भु साम्°, १निर्देशी°,
 *निर दाह- १अ°, *निर्देशन्ती°-
 पशुम्°, निर/दिम् > निर्दिष्ट-
 १अ°, पशुमी°xx, निर्दिष्टभाग-
 १अ°, निर्देश- १अ°, अनन्तर°xx,
 निर्देश- १अ°, निर/घम् >
 *निर-यघ-अक्षीर°, निर/वाष्
 > निर्वाय- अघरात°, अन्तु°,
 १उत्तर°, उपरिष्ठा°xx, निर्दि
 /सिद् > *निर सिम्न, सा-मल°,
 *निर्भेद- यथा°, निर/मथ्, न्य
 > निर्मथित- समाहृत°, निर्म-
 थ्, निर्मल- शरीर°, निर
 /मा > *निर-मा- सर्ववेदता°,
 निर्माण- अन्तर°, निर्मावृ-
 लृट्°, निर्मित- उः अशां
 ३०, ५२ [०त- १अ°, १दे१°],
 निर्माल्य- १दे१°, तज्ज°, निर
 /मुष्, उच् > *निर मुष्-
 अमुदित°, *निर मोचन- प्रवा-
 चीन° ऊर्ध्व°, *निर-भोच १अ°, निर
 /सृञ्ज् > *निर सृष्ट, हा- १अ°,
 निर/यस् > *निर याज-
 वैर°, निर/यस् > १निर्घात-
 किलवय°, १अक्ष°

a) वीषि चैव विम पाठ । b) पृ १४०९ चञ्ज- > यति द । c) कर्षाधिके टट । d) पला (शी धा) > यदि द । e) = उक्ष भेद । f) पृ १४२० यति सक्त्याचनेत द । g) = श्लोपि-निरोध- । h) माप = निर्माय- । i) पाठ १ यति इति श्लोच (सु सक्तुं वि, अत्र ३, ४०, ५५) ।

निष्/कल् > *निष्-काल* - > ल-प्रवेश- गो; निष्/कप्, स् > निष्/व, स- -वेण; -सम्^३ वीथी १७, ५६ : २१; ६२ : ११; -तेन^३ आपथी ८, ७, १४; माथी ८, १०, ६; दिथी ५, २, ६३

[प- चङ, दुप, शारण, वारणी, श्वर, वरम्, शिरम्, ४स]; *निष्-कापम् १अ^३; निष्का-सिता-, *निष्कासित्- १अ^३

निष्/कृ > निष्कृत-पुनर्, निष्कृति-श्रुच^३, तद्; *निष्/कृ (विज्ञेये) > निष्-क्री (कृ) > ग- १अ^३; निष्कैवल- > निष्कैव-स्य- श्वात्वरस^३; निष्/क्रम् > निष्क्रम-सम्भारम्; निष्क्रम्य-साथी ३, ८, १५^३; निष्कान्त-ऊर्ध्वं, गो; निष्/क्री > निष्क-यण-आत्मन्; निष्/टप् > *निष्-टपन- वली; नि/टप् > निष्कथा- १अ^३, नि/टप् > निष्कृपा- १अ^३; नि/टप् (<सु) > निष्कृत-१अ^३; नि/टप्-१अ^३, मूत्र^३, नि/टप् > निष्का-१अ^३, अमिहोत्र^३, ज्वर्य^३xx

निष्/ष्टीष् > *वन- सृष्टच्छेद^३
निष्कत्र- १अ^३, निष्/पद् > निष्कचि- १अ^३, अक्षर्मकाल^३, अने-क^३xx, विष्कम- १अ^३, उतरारणिक^३, कुलाजपक^३; *निष्काध- १विचि^३

निष्/पिष् > १निष्पेय- १अ^३
निष्/पीष् > *निष्-पीष्, निष्पीठन- वरन्; *निष्पमन्द-^३ गाला^३, निस् उपर्य^३; *नि/सुत् > नि-सूदन-१अ^३; नि/सुत् >

निसर्ग-तद्; नि/चु > निष्ठाव-
रभूत^३; नि/स्यन् > निस्त्रय-
गम्भीर^३, पीठयान्पूर्व^३, पीठ-
वादिद^३, निर्घात^३, १अ^३

नि/सुत् > निःसरण- ६भा^३;
नि.सुत्- १तन्मुत्^३, प्रिनयनमुत्^३

नि/सुप् > *निःसुत्- यथा^३

*निः/स्यन् > निः-स्यन-
श्वरा^३xx, १अ^३; नि/हन्, निष्कन्ति वीथी ४, ६ : ३३^३; दिथी ४, ३, ५२^३; *नि (नि) हंसि साथी ४, १३, ७; १निष्ठाव- १अ^३, आमन्त्रि-
त^३, रगति^३xx; निहत्- श्वात्मन्^३, प्रथम^३; निहृष १अ^३; नि/हृ, नि
**हर > रा तेमा ३, १२^३; मोहार-
१हृष्ण^३, रजम्^३, १ज्योहित^३

नि/हु > निह्वन- अमिमर्शन^३

नि/हृस > निहास- प्रकृति^३

नि/हृ > रनिहृष- इन्द्र^३, २वसिष्ठ^३
वतिष्ठस्य^३; *निह्वन- अज्ञन^३

*नी^३ अञ्ज^३, अति^३, अतिप्र^३,
अत्या^३, अशुद्^३, अतु^३, अतुनि^३, अतु-
पति^३, अतुप्र^३, अतुवि^३, अतु^३, अना^३,
अप^३, अवि^३, अमि^३, अमिनि^३, अमि-
वि^३, अम्यतिनि^३, अम्यत्^३, अ-शा^३,
अभ्युद्^३, अभ्युदा^३, अष^३, अविनि^३,
अ^३, उउद्^३, उदा^३, उप^३, उपनि^३,
उपसमा^३, उपाति^३, उपात्वा^३, मि^३,
विद्^३, परि^३, परिनि^३, पर्या^३, प्र^३,
प्रति^३, प्रतिनि^३, प्रतिवमा^३, प्रत्यप^३,
प्रत्या^३, वि^३, विनिर्^३, व्यति^३,
व्यन^३, व्या^३, व्युद्^३, व्युदा^३,
संनि^३, सम्^३, समत्^३, समत्वा^३,
समत्^३, समा^३, समुद्^३; नय-,
नया- नयन- अशु^३, १श्वात्स्य^३,

पातर^३, प्रि^३, २२शिष्ण^३, नयमान-,
*नपितुम्, *नपियावा, नय-;
नायक- १२घट^३, १विण्^३, संवेण^३;
*नायन-, *नायम्, *नायिन्^३,
*नाय- , *निनीपत्- , *निनीप-
माण-, *निनीपु-; *नी- १अ^३,
अने^३, धाम^३, १यत्^३, १वत्^३, तेना^३;
१नीत्, प्रा- १अ^३, १उभग^३, तुष्णा^३,
पापु^३; नीतदक्षिण- अहीनातुदेव^३;

२नीत्- नव^३; नीति- १अ^३,
अतु^३, तदत्^३, १देव^३, १वत्^३;
नोवा; नीध- १अ^३, ईर्ष^३,
१देव^३, १वत्^३, सद्दस^३; *नीथ,
नीथमान, वा-, *नेतथै, नेतव्या-,
*नेतुम्, नेत्-; १नेय^३- १वात्स^३,
१उभव^३, २रात्^३, प्रि^३xx; *नेत्र-
वदन- तत्परिपूर्व^३; २नेत्र^३- श्रि^३,
इन्द्र^३, वृहस्पति^३, दापु^३, *नेमन्-
१अ^३; *नेय- वाणि^३, ब्रह्म^३;

नेष्ट- प्रतिहृत्^३, प्रस्तोह^३,
ब्रह्मन्^३xx; *नेव्यत्-, *नेव्य-
मण्णा- नी (नि/ई) > न्यय-
अवाम्; न्याय- १अ^३, इभावा^३,
अपवाद^३xx; न्यायपूर्व^३, *न्याय-
समास- न्याय- १अ^३, *नीष्

(व्यपने) प्र^३, संप^३; नोष्प
नीच, चा- १अ^३, अति^३, उच्य^३,
१एक^३, तिष्ण^३; नीचत्व- स्तरित^३;
*नीचा-नेष्ट- १अ^३

नीड- रय^३, १अघट^३, ३स^३
*शेनीष^३- २अरत्^३, निम्न^३

नी/रात् > नीराजन- १हस्तिन्^३
शेनील- अति^३, इन्द्र^३, धूम^३,
मन्त्राहात^३, ३रक^३, २ति^३,
*नीला (ल-व) ज्वन- काच^३;

a) = निष्कालन- । b) पामि. ५ २१४९ वृ द्. । c) पामि. ५ ६९५ उ द्. । d) अर्थः व्यु. चर्च ।
e) पामि. २५०४ h द्. । f) पा ३, २, ६९ परासृष्टः द्. । g) ५ १४४३ यमि. संख्यासंकेतः द्. । h) नैप्र.
<नेतुङ्- । i) = वृष-विशेष- ।

नीलोत्पल- उखलन^०, महत्^०,
 *नीलोत्पल-कमल-नक्ष^०, *नीव^०-
 विभीदक^०, सु १न^०, √नु, नृ-
 अति^०, अण^०, आ^०, प्र^०, सम्^०,
 *इनव- नवव- *नुत्- *नुवत्-
 *नोनुव- रादा^०, √नुद् अतुप्र^०,
 अण^०, आ^०, उण^०, उपा^०, निर्^०,
 परा^०, प्र^०, प्रति, वि^०, विप्र^०, सम्^०,
 समुद्^०, सुध- १अ^०, प्रहम^०,
 *नुत्ति- *नुत्त, *नुद^०- तमस्^०,
 सुदव- *सुदान- *नुध, *नुध-
 मान- नुत्त- *नोद- *नोदन-
 *नोदम, *नोदित- वातवैकृत^०,
 *नोध, नूपुर- १काशी^०, पशोही^०,
 ४स^०, नृ- १धन्वर^०, धृप-
 आपामिन्^०, ऋषि^०, घो^०××,
 मृमेध-> नार्मेध- शोक^०, सौभर^०,
 नृशस- १अ^०, अभिशस्त^०
 √नुत् अतु^०, आ^०, परि^०, प्र^०,
 नवन- जम्भन^०, *नर्तिन्- मोहे^०,
 नृत्त- जया^०, १मयु^०, नृत्त-
 गीत^०, शिल्प^०, आङ्कत^०,
 नृत्तव- *न्ती-
 नृम्ण- हान^०, तुवि^०, लेव^०, वीति^०,
 १पुव^०, नेक- नेकृ- नेजक-
 प्रम् √निच् (परि) द, नेव- >
 नेविष्ट- नाभा^०, नेदीयस्-सायङ्क^०
 मेघ- √निच्, द (परि) द
 नेमि- १अरिष्ट^०, तरजराय^०, रथ^०,
 १य^०, ४स^०, नैष्टययन->
 *नैष्टययन विद्- १अ^०, नोषस्-
 >नोषस्- श्वेत^०, नौ- १अ^०,
 १वृष्ट^०, शिला^०, सु^०, १दस्ति^०,
 *नाय- अर्ध^०, १नाय-> ज्वा-
 १अ^०, *नाम्नु (वि-उ) दक- अतृत्^०

न्यग्रोध- पाग ४. ३, १६२^०
 [०ध- १अक्षय^०, विष्कृत^०]
 न्यङ्ग- न्यङ्कु- १अङ्क^०, *न्यङ्कु-
 शिरा- १कङ्कुम्^०, न्य (नि/अ)च्
 > *न्यचत्- १अ^०, न्य(नि/अ)
 ङ्ङ > न्यत्- अलि^०, न्यङ्ग-
 धवमृष^०, इन्^०, पृष्ठ^०, रवरण^०,
 विष्णु^०, रेत^०, न्यन्त- आहवनीय^०,
 उपाव^०, मार्जालीव^०
 न्य(नि/अ)द् > *न्य (नि-अ)ने-
 चत्- पा ७, २, २४, न्य(नि/अ)
 स् > न्यस्त- १अ^०, प्रत्यस^०,
 *न्यस्ता(स्त-भा) विज्य- अहीनातु-
 देय^०, न्यास- कर्मर^०, गो^०,
 पव^०××, न्यु(नि/उ)ङ्ङ > *न्यु-
 (नि-उ) क्लिन्- अमहार^०, न्यु-
 (नि/अ)ङ्ङ > *न्युङ्ङ- १अ^०,
 जप^०, प्रति^०, वैराज^०, ४त^०, १सामर^०,
 २सुब्रह्मण्या^०
 न्यून, ना- १अ^०, चतुर^०, १पाद^०

प

१प- उ^०, उर्वा^०××, पकार- ककार^०,
 द्वि^०, पवर्ग- अतुस्तार^०, २प-
 √पा (पनि) परि द, ३प- √पा
 (क्षणे) परि. द, पक्ष- १अ^०,
 अतिशोम^०, अन्त्य^०××, पक्षपुच्छ-
 १अ^०, ४त^०, १सम^०, *पक्ष-पुच्छ-
 विशेष^०- ४स^०, पक्षापरोप^०,
 पक्षिन्- १अ^०, अङ्गिन^०, १काक^०××,
 पक्ष्य- १द^०
 पक्षस्- २ध^०, लि^०, *पक्षस्-
 ऋत्^०, पक्षमन्- तसर^०, पङ्क-
 रतार^०, पङ्कज- १नील^०, पङ्कित
 (वत्रा)- ऋत्^०, अन्तुम्^०

आर्ची××, पादक- १अ^०, औ-
 विण्^०, महत्^०, पाङ्कज-
 *पाङ्कज^०- १अ^०, पङ्कजुत्तर-
 पङ्कित^०, पङ्कगु- कुञ्ज^०
 √पन् आ^०, २उद्^०, निम्^०, परि^०, प्र^०,
 वि^०, अति^०, पक, का- अति^०,
 अवनिलन^०, ३आउण^०, १आन^०××,
 १पकास- छत^०, तिल^०, *पका
 (क आ) शिद्- १अ^०, *पच्-
 श्वर^०, पच- १अ^०, नक्षम्^०,
 १मितम्^०, पच^०, पचन- अन्वा-
 हार्य^०, धूपन^०, पुनर्^०, १लोहित^०,
 *पचनी- नात्^०, *पचन-वत् चातु-
 व्यास्य^०, पचमान-> पच- १अ^०,
 *पच्य- छट^०, पच्यमान- राधु^०,
 १पाक, का^०- १अ^०, १अप्र^०, उपरि^०,
 १तद्वृत्^०, करोत^०, १तुम्भी^०,
 अने^०××, पाकयज्ञ- चर्^०, सप्त^०,
 सर्व^०, *पाकु- दूरे^०, फले^०, *पास्य-
 १तुम्भी^०, श्ल^०, √पञ्च्, पञ्च-प्र^०
 १पञ्च- इत्यादि^०, १एक^०,
 चतुर^०××, पञ्चक- उराम^०, तर्^०,
 द्वि^०, प्रथम^०, प्रथमसभ्योत्तम^०,
 मध्यम^०, शत^०, ४स^०, *पञ्चिक-
 द्वादशिका^०, पञ्चगुल- अति^०,
 १पञ्चवपस्- १जलाशयन^०,
 २पञ्चवपस्-, पञ्चत्रिंशद्->
 *त्रिंशत्-> *पञ्चत्रिंशत्-
 द्वादशिका^०, पञ्चदश- अर्ध^०,
 दश^०, पञ्चदश- -शानि आथी
 १३, ५, २^० [०ध- यजोतिष्टोम^०,
 तिहा^०], पञ्चदशी- अष्टमी^०,
 १कुण्ड^०××, पञ्चतल- १मृत्^०,
 २पञ्चपदी- १अ^०, पञ्चम-
 १अ^०, अर्ध^०, जालन्^०, चतुर्थ^०××

a) = २क्ष-विशेष। b) कर्त्तरि इत्। c) ननि त्यल-लोप। d) = पवर्ग- वा चर्त्- वा। e) पृ १४५९ ननि सट्पासनेत् द। e) इत्। f) पृ १४६० पशावि > ननि. द। g) ष्य प्र.। h) कर्त्त- भापादिषु इत्। i) कस। j) पृ १४६६ ननि सत्पासनेत् द.। k) पृ २०६७ म् द।

पञ्चमी- १अ°, अन्वत्°, इह°
 चतुर्थी°, तृतीया°, सप्तमी°, पञ्च-
 वाल्वा- अम् वैशु २, ५ ११,
 *पञ्चशतम् (ए-अ)म्- अम्
 वैशु ३ ३ ५, पञ्चाशति- १रापी-
 पण°, पञ्चाशति- द्वाशशत्°, पञ्च-
 शतम्-> शतश्रीय- अन्वासत्त्वं°,
 पञ्चत्तर- सद्द°, पञ्चदशोत्प्रेष्टम्-
 पञ्चाशत्-
 पञ्चाशत्- त्वाणि, पञ्चा-
 पत्यगण-
 १पञ्चाशति- >
 *पञ्चाशति-मात्र- -त् चव्यु ४:
 १४, *पञ्चा(स श्वा)यै- एकार्य°
 पञ्चावस- चतुरवस°, पञ्चाशत्-
 १अशत्°, जन°, १एक°, एकस्मात्°,
 एकास°xx, पञ्चाह- अमिलवत्°,
 चतुरहत्°, तद्°xx, पञ्चिन्- त्रिष्ठ°,
 *पञ्चोदक- १अत्त्वं°, *पञ्चा-
 न्तेनवशारीरास्त्यादि° संशु १३
 १पञ्चाल- १इत्° प्राच्य°, १पञ्चाल-
 २वाक्त्वि°, १इत्°
 २पञ्चाल-> *पाचारेय- कैलि-
 क्कु°, पञ्चाल- नरक°, १पास°
 ✓पद् १इत्°, परि°, वि°, पट-
 धत°, शुक्ल°, श्वेतक°, पाठन-
 *✓पाटि निम्, *पाटि-, पाटित,
 श- १अ°, *पाटय, पटल-
 दिनीप°, पटह- १अत्त्वं°, पटीर-
 साटी°, पट्ट- १कुमार°, मेहे°,
 गोष्ठि°, *पटीय (पु>)सी- बाल-
 मानसगण्यान्निपाटन°
 पट्ट- १अत्त्वं°, टोप°, पट्टव्य- १अ°,
 *प(ट्ट क->)ट्टिका- शाटी°

*पाटिश°- श्लत्; ✓पठ् अनु°,
 नि°, परि°, प्र°, सम्°, *पठ्-
 पठित- १अ°, १अस्थान°, १माहाण°,
 पाठ- मय°, मन्त्र°, पठ्, व्यव-
 रित°, सम्पद्°, सूत्र°, १स्त्वं°, पाठ-
 शोष- या. भाषि १, ३०°, पाठक-
 २धर्म°, मङ्गल°, यथाविरचित°, १लि-
 रित°, *पाठिन्- २वेद°, १पद्->
 १पद्-योत- -शात द्वाधौ ४, ३, २^३,
 लाश्री २, २, ११^३; -शे अत्रा ३,
 ४, १. ✓पथ् अा, पथ- अर्थि°,
 अर्थ्य°, दूरत्°, *पथिक-; *पथि-
 त्वम्- पथी°, पथय- १अ°, अकीत°,
 गन्तव्य°, परदेश°, १समुद्र°, सर्व°,
 स्त्री°, स्वदेश°; पथिन्-> पाथि-
 नि- दाशोपुर°, पानिनीय- रौरीय°,
 *परीक्षी, पथटा-> पथित-
 अति°, १कुमार°, मेहे°, गोष्ठि°
 ✓पत् (गती) अति°, अद्, अमि°, अति-
 नि°, अभिप्र°, अम्बा°, अय°, श्वा°,
 २उद्°, उपनि°, नि°, परा°, परि°,
 प्र°, प्रथि°, प्रसुद्°, विनि°,
 व्यलि°, संनि°, सम्°, समुद्°,
 २पठन- १अयत्त्वं°, १अशत्°, क्कु°xx,
 पठनीय- १अत्त्वं°, *१पथिक- पाठक°,
 पथित, ता- १अ°, अधि°, अनुपुम्-
 कशट°xx, *पथित कर्मन्- महा-
 पाठकदि, पथिवसावित्रिक- बो-
 हन्त्°°, *पथिता (त द्र) स्यामिन्-
 मङ्गलत्त्वं°, *पथित्यु-, *पथिव्यत्-
 *पथ्य, *पथ्य- १कर्त्त°, पत्र (वश)-
 १अम्, १अच्छिद्, अथिलम्, वृद्धत्°,
 १पत्रक- १अत्त्वं°, नाना°, वृह्,

पथपुष्प-, *पत्रा(त्र-अ)म्- १त्त्वं°,
 २पथ्यन्- आयोम्°, अशु°, पथनि-
 सु°; १पात- अन्तर्°, अशानि°,
 अशु°xx; पातक- १अ°, शति°,
 अमर्य°xx; पातकिन्- अमेध°,
 २पातन- १अभ्र°, पूतभारि°, पत्त°,
 २वात्त्वं; पातम्; पातित- अर्थ्य°,
 *पातिन्- अर्थन°, १एक°, मनन°,
 वृत्°, श्वेत°, शोष°, *पातिनी- हंस°,
 पातुक-, *पात्य, *पात्य- अन्तर्°,
 *पात्यमान-; पतङ्ग- २वेत्त्वं°,
 रक्षम्, २रत्, पताका- अमि°,
 पटा°xx, पति- *१०वे° अत्राय
 २, ५; अत्र ३७, ५, ४ [१ति- १अ°,
 अंद्म्, अंद्दत्त्वं°xx], पत्नी- १अ°,
 अमाय°, अशु°xx, पत्नी(क)-
 १अ°, १युत्°, १त्त्वं°, सद्, पत्नीय-
 आचार्य°, पत्नीवत्-> पत्नीवत्-
 उपनाय°, दिदेवाय°, वैस्वदेव°,
 सावित्र°, स्वस्वयम्°, पत्नीसपत्र-
 आज्यभाग°, वक्षिम्°, शाला°,
 पत्नीसनहन- अन्वाधान°, प्रथिता°,
 २पति(क->)का- १अ°, १युत्°,
 पतिनी- १अ°, पतिवत्- अन्त-
 वेत्, पतिवदा- १अ°
 *२पत्रक- अतिष्ठक°, ✓पथ् म्यु
 क्वि°, पथ्-सु°, १ल°, पथ्य, धा-
 १अ°, २कृति°, पथिक्, सु°, १पथ-
 १अ°, १अत्त्वं°, अथ्यु°, अयु°xx,
 *पथ-दायिन्- १अ°, परि-
 १आसन°, छेदादि°, देवपूजा°,
 सु°, १अमरम्°, पथिक्->
 पाथिक्क- वैद्यमन्, पाथिक्की-

a) प्राति १°क->पति. द । b) क्त. वा मस. वा इति टि शोषः । c) वृ १४६८ पत्र पति-
 इति कृत्वा ३,० टि बहुक तन्मेष्टु (ह्र मय ३२, २१, १) । यनि च शोष. द. । d) वृ १४०८ पञ्चा-
 इति वदित्वापु मेष्टु । e) = अशु-निवेप- । f) अम् प्र. । g) अति स्थल-शोष । h) पद्विगाव इति
 पाठ । यनि शोष (ह्र वैप १, १८८५ q) । i) *टी>पति. द । j) वृ १४०८ यनि, सवसातकेतः द ।
 k) वैप २ द । l) पाथे. वैप २, २९४४ h द. । m) = सुगन्धित-अय- ।

महत्, १पन्ध- १कुप्यो, परि, १पन्ध-दायिद्- १अ, पन्धन्- विपम, पन्था- अर्त्तो, त्वरमाख, १पन्धिन्- हु, √पद् भति, अतुनि, अतुनिस्, अतुप्र, अतुद्, अप, अपि, अभि, अभिप्र, अभि- प्रति, अभिसम्, अभ्या, अश्व, अवा, आ, रउद्, उप, उपनि, नि, निस्, परि, प्र, प्रति, प्रत्या, प्रत्युद्, वि, विप्रति, व्या, व्युद्, सनिर्, सम, समभि, समा, समुद्, सप्रति, १पच- पचि- २विषय, १पचन्- १पचुम्, पद्- १अ, अर्थन्, १अष्टन्, अष्टा- दशन *x, १पत् छौ (<शौ) च- १हृन्, १पदि बडा- १अ, पदलि- परानुकारिन्, १पद् घुम्पद्- अस्मद् अस्थाय (दि-अ) महुद्- हुइ पात्रा १, १, ७२, पद्- पात्राय द्वि, ३, ४१ [१- १अ, अहृन्, अक्षर, अभि, १अन् *x], १पद्- क्रम-वद्, १पद्क्रम- १पद्बिष्- महद्, १पद्-वर्ग स्वर-कुहरण- मुद्, पञ्चवृत्ति- रउद्ग्राह, प्राच्यपशाळ, पदस्त्रोम- निर्यादि, पदाक्षर- ललित, व्यञ्ज, पदाति- १अ, १सम, समप, १पदाति-क- १हलित्, पदादि- १अ, इदम्, पदा त, पदाविधि- १अ, पदा- नुस्वार- हाङ्कारस्वार, पदान्त-, १पदान्त भाञ्- १अ, पदार्थ- अन्, पद्, १पद्य, १पद्य- १अ, अर्थ, जि, सन्, पदन-, १पद्य-

१पद्य-, १पद्यमान, ना-, १पन्- १अ, पन्थ- रक्ष्, पाद्- १अ, अर्थ, १एक *x, १पाद्- १अ, १अन् अथस्, अर्थ *x, पाद- क-> १पादिका- वि, १पाद- तल- त्वच्, १पाद् तुण्ड- ३रका, १पाद्-धावन- मैशुन्, १पाद्प- स्तम्, १पाठ पाणि- प्रशाखित, सुप्रक्षालित, १पाठ-पाद् धावन- अमियु न, पाद्पवाहन- अन्ते- खन्, उच्छिष्टाशन, गानोत्सा- दन्, १पाद् प्रसारण- क्यप्रा- स्त, पाद्भाग- सपाठ, १पाद्- चाल शीर्ष- ४अ, पाद्बृत्त- तैरो- व्यञ्जन्, १पाद् हस्त-, पादादि-, १पादादि भाञ्-, पादाञ्-, १पादान्तोय- १अ, १पादिर्-, १पाद्य, १पाद्य- अथस्, अर्थ, १अष्ट, १आसन, उद्व *x, पाद्यपात्र- श्रेत, १पाद्यपात्र-व्य- पित्, १पाद्यक-, १पादन-, १पारम्, १पावयत्-, १पादयित्, १पाद- यितुम्, १पादयित्, १पादयित्, १पादित-, १पादिन्-, १पादु- रवार, १पादु(क->)म- ल्वा, पवित्र, १पाद्य, १पाद्य-, १पाद्यमान, ना-, १पद्य- किञ्च, उद्व, १कुक् *x, १पद्य क- कम् अरि, ४५ ५ [क- वन्दन्], १पद्यैर्द्वय, १पद्यञ्- १मुचर्थ

१पद्य- २अहृन्, √पन् आ, वि, १पयिक-, १पन्था-, १पन्थु- पनस- न्यथोप, १पानस- चार्त्त, १पय-

१पय- १पयन्धिन्- परि, १पयन्धि- (>पान्थ- वा) पा ४, २, ८०^६

पयस्- अन्धित्, १अवा, अतिमधुर, अपेय *x, पायस- अन्ध, कृशर, रा, गन्ध *x, पयस्य, स्था- १अ, क्षामिष्ठा, पुरोडास, १पयिहित- स्वेद * २, १पर- १अ, अमार, अमारव्यञ्जन्, अमि *x, परशे-त्र- ह्यलेभ, परगर्हा- पेशुन्, पर- चक्र- स्वचक्र, परतन्त्र- स्वतन्त्र, परतर- १पर, परत्व- अकार, १पर दृष्ट- १अ, १परपूर्व- तद्वि- गति, १परमथय- स्थान, परमथय- सप्रपथ, साक्षात्, परम, मा- एकादशन्, चतुर्विंशति, त्रिान *x, परमामन्- सजन्, परयोग- १अ, पराष्ट- स्वराष्ट, परलोक-> पारलौकिक- १अ, १पर-वाष्- १लदण, १पर-विप्रति- देय- अन्ध, शास्त्र, पास्तवर्गी- अतुनासिक, परसस्वान, ना, १पर-रूपान- १अरु, १परस्मै- भाव- पाथा ६, ३, ७ [१- आत्मनेमाप], १परस्मै-भावा- वर्ण, पराधीन- राजन्, १पर- (र-क)दण- १नारायण, १पर- र्थ-> १र्व- हावक्षरात्, मास, रावत्तर, १परोदक- उणोदक

१पर-पग- √इ (परि) इ १परसु-> १पात्ताय- १वदर्थ १परसु- उदुम्भ, अर, पाकार्य

a) इ १४८४ यनि सख्यासकेतः इ । b) भाप, नाप । c) यनि रयत् जोष । d) विप, नाप । e) भदि कर्त्तृ च कृत् । f) इ १४९२ यनि सख्यासकेतः इ । g) विप, नाप (उपान्त) । h) विप (मधु), नाप (रुक्) । i) वन 'डु' > यनि इ । j) व्यप । k) सन्ध- इति पाठः । l) अर्थे णु च । m) इ १४९६ यनि सख्यासकेत इ । n) इ १५०० परव > यनि इ । o) उप, =भाया- । p) क्व, ।

४०°; परस्य- कंठीय°; १परशु-
 वृद्ध- १अ°, परस्यध- शूल°
 परस्- > परस्ताद् १अ°; परोक्ष-
 १अ°, अघटन°, अनुग्रहीत°, एतद्°,
 प्रत्यक्ष°, श्रेयस्ती°; परोक्षपृष्ठ-
 तमवतस्°, मर्व°, परोपरीगस- १अ°
 परा श्रु°; १पराक- गर्भ°°
 चातुर्मासिर्भैरव°°, दि°
 परा/कम् > ०मम- प्रथित°,
 १वत्°, शीम°°
 परा/गम् > परागत- १अ°
 परा(रा/अ)च्, ष्च् > पराच्, ष्च्-
 छु°; पराची- १अ°; १पराद्-
 भावृत्त- न्यस्ताशुभ°; पराद्मुख-
 व्यस्तगारध्यायुष°; पराच-
 शब°; १परा/चि > परा-
 चित- अवचित°; परा/जि >
 पराजय- १अ°, उपलक्षेना°; परा-
 जित, ला- १अ°; परा/शुब् >
 १परा-शुभित- श्चातु°°; परा-
 /पत्, परापवाद शोथी १, ६,
 २१°; परापठत् श्रापथी २४, १२,
 ६१°; परापतित-, १परा-पतित-,
 १परा-गतिन्-प्रथम°; परा/भू >
 १परा-भात-१अ°, परा/मृश् >
 १परा-भर्त्रम् मुष्टि°; १परायण-
 १परारिका°- वरञ्ज°; परा/वप्
 > १परैर(र-उ)क्- मन्तु°
 परावसु- श्मन्वकु°; परा/श्ट, श्रु
 > १पराशर- उपमन्तु°; परा(रा-
 /क)स् (शेषणे) > १परा(रा-श्रा)
 स- सात् अत्राय ५, ३° [स-
 १श्रन्ता°]; परि १अशु°, श्रधि°,
 १श्रन्ताकर°, परि/कीर्ति > परि-

कीर्तन- प्रशङ्ग°; परि/कम् >
 ०कम- मन्त्र°; १परिक्रमिन्-अन्त°;
 परिक्रामत्-, परिक्रामम् १अ°; परि-
 /की > ०कप- कप°; ०कीत्त-
 कथापन°; परि/दिल्लश् >
 १पति-बलेद्य- १वन्तु°, वध°°; परि-
 /क्षिप् > ०क्षिप् १अ°; परि-
 /राण > ०गणन- १अ°, १वपय°;
 १गणित- १अ°; परि/गम् >
 ०गत, ता- तद्°, बालदश्री°
 परि/गृह्, प्रह > ०गृहीत- १अ°,
 साधु°; ०ग्रह- १अ°, १उत्तर°,
 कुलधर्म° x x
 १परिद्रोवा- रास्तावत्°
 परिधर्म-> ०धर्म- र्म°, परि/चद्
 > १परि-चर°-अग्नि°, परिचरम-
 अकला°, अग्नि°; १परिच(र >)
 रा°-, परिचर्षा- अग्नि°, रोपणादि°;
 परिचारक- कृपिगोपाल°, गुह°,
 पशुपाल°°
 परि/चि (चकने) > १परि-चप-
 १गोमय°; परिचय्य- २शूल°;
 १परिचय्यो(य-उ)वचाय्य- ४स°;
 १परिचिद- १अ°; परि/छद्
 > ०छद्- यज्ञकाण्ड°, वैशाख°,
 ४स°; परि/च्छिद् > परिच्छिद्य
 १अ°; १परि-च्छेद्- पूर्व°; परि-
 /जन् > ०जात- १अ°; परि-
 /जि > १परि-जि(उ >)ता-
 श्र्ध°; परि/षा > १परिशाउ-
 १अ°; परिज्ञान- विभङ्ग°; परि-
 /पम् > ०पठ- > ०वपस-
 १अ°; ०वति- २वन्तु°; ०णाम-
 आहुति°, दीक्षा°, सूक्तप्र°

परि/णाद् > पति, रोगिन्द्- > १अद्
 (क) - १अ°, ४स°; १परिणद्ध-
 एकाद्गुलि°, १त्रिपद्°, यवानोभ°,
 १पद्गुल°, १परि(>)रीग(द >)
 द्वा- १अ°, सु°
 परि/णी > ०गणन- १अस्ता°; ०गो-
 (त >)ता- २माह्वय°; ०गीय,
 ०भेष- १अ°; परि/तन् >
 १पति-तठ- दक्षिणमाद्योरित°, परि-
 /तप् > १परिवाप- शरीर°;
 परि/त्याद् > १त्यक्- स्लेष्मान्त
 ...दि°; १यवान- तर्षध्व्य°; परि-
 /धै > ०घ्राण- गोब्राह्मण°; १परि-
 दश°- १अ°; परि/दा(दाने)
 ०दत्त- तथा°; परिदा-> १परिदा-
 कृप- १अ°; परिदान- सर्व°; प-
 रि/> मीत्त- यथा°; परि/दिप्
 > १परि-पूत- १अश्र°
 परि/दंद् > ०दंद्ण- श्रुद्दह°,
 भूमि°; परि/धा > ०धान-
 परिधि°, पुनद्°, वासन्°; परिधा-
 गान्त- आ°; परिधाभीव, या-
 -या आपथी २१, २, ४° [य, ध-
 १शस्त्र°, सामिधेनी°]; १परिधि-
 श्रुत°, अन्तद्°, अन्तर°, अग्नि-
 ध्या° x x; १परिधिपतिवैप्राधृषु°
 प्रतिरूपक- निर्धत्त°; १परिधि-
 परिधेयन- निपरीतदमोस्तारण°;
 परिधिसंधि- उत्तारार्थ°; १परिध्व
 (धि-ञ)जन- व्यूहन°; परिधित-
 नया°; परिहित, वा- एकशरीर°,
 कृष्णचैत°, मर्व°, मौञ्ज°, त्र्य°,
 शामूल°; परि/ध्वत् > ०ध्वत्त-
 १परिध्वसा- बर्ध°; परिनिर्द्वा

g) इ १५०२ c नाप. (अश्र-विशेष-)' इति पठनीयम् । h) इ १५०२ वृ 'दिप->नाप. (पठ-
 विशेष-) । म. इति पठनीयम् । e) पाठे, वैप २, ३खं. पशुपठद् मात् १, ५, १, २० टि. प्र. । d) इ १५०६,
 १५२५ बनि. संख्यासंकेतः द. । f) पाठे, इ २३०x प. द. । g) = परिचरण- ।
 h) इ १५११ बनि. संख्यासंकेतः द. । i) पाठे, उव. = १दत्त- । j) पाठे, इ २५६९ c द. ।

> परिनिर्मित- १अ°; परिपश
 व्ये° उपेक्ष्य°; परि/पालि >
 *परि-पालन- कोश°, प्रवा°
 परि/पू > पू(त >)ता- १अ°
 परि/पृ, पृ, (परि)पिपृत > ता
 क्रमा ८, १४°; *परि-पर°- १अ°;
 परि/पूर्व- तद्°; परि/प्रच्छ >
 *परि-प्रश्न- आख्यान°, जाति°
 परि/प्लु > परिप्लव- > परिप्लव-
 वावातासंवेदान°, *परिप्लुह, ता-
 तैल°, पुत्रशोर°, स्नेह°
 परि/वाध > *परि-बाध- -०ध
 क्रान्तिवृ १, ५, २; ५°; परि/वृह
 > *परि-वृद्ध- ४टा°; परि
 /भाष् > *परि-भाष्य- १अ°;
 *परि/भिद् > परि-भिद्-
 १अ°; परि/भुञ्ज > *मुक्-
 १भीत°; *भोजन- १अ°; परि
 /भ्रंश्ज > *परि-भ्रंश-गुणाचार°;
 परिभ्रष्ट- विवाचार°
 परि/मद् > परिमाद्- > *मात्
 (-क)- १अ°; परि/मा > परि
 L, री)मान- १अ°, अक्षर°, क्षमि°,
 १अ°, श्रुतिवार°x; परिमाण-
 १अ°; परिमित, ता- १अ°, इतिसे-
 ख्या°, मासदि...°; यत्न°, *परि-
 मित-ख-पथाहाव°; *परि-मित-प
 परि/मिद् > *परि-मेद्-उत्तुल°
 परि/मृञ्ज > परिमाण- १अभ्रम्य°;
 *परि-मृज- तु-१°; *परि मृजन-
 क्षमि°, परिमृष्ट- लोष्टिका°; परि
 /यञ्ज > परीष्ट- अभिनिमुक्त°;
 परियञ्ज- १अ°; परिरेय- >
 *परिरेय- नव°; परि/लिप्
 > *लिखित- रथा°; *परिदेप-
 भूमि°; परि/लुप् > *परिलोप-

१अ°; परिचत्सर- नः हिभी१५,
 ७, १२° [१२- १अ°]; परि/वद्
 > परि, री)वाद्- अत्यात°, नित्य°,
 प्रत्रापति°, १मनु°; *परीवादा(द-
 आ)क्रोश- श्राद्धणरे...°; सर्व-
 भूत°; *परिवाय- १अ°
 परि/वष्प > *पर्यु(रि-उ)प्य १अ°
 परिवपा- > परिवप्य- श्राद्ध-
 माम°, उष्य°; परिवर्ग-; *वर्जन-
 परि/वृत् (परि.) दः; परि/वस्
 (निवाये) > *वास- विप्रवृद्धि°;
 पर्युपित- १अ°, १गोमय°, प्रयत्न°,
 राजमाप°, श्राद्धकृत°; *पर्युपिता
 (त-अ)स- १मधु°; परि/वस्
 (छेदने) > *वासन- इष्य°, ईवेद°;
 *वासित- १अ°; परि/वह
 > *पर्युह- रथ°; परि/विह
 (लये) > परिविच- अभिनिमुक्त°;
 परिविचि- अभिनिमुक्त°, वृष्टा-
 शिव°, तस्कर°; परिविज- अभि-
 निमुक्त°, तस्कर°; परिविदिवा-
 न- अभिनिमुक्त°, परिविति°; परिवेषु-
 अभिनिमुक्त°, वृष्टाशिव°, तस्कर°;
 परिविति, परि/विप् > परि, री)
 वेप- अनीद°, ताराग्रह°, १अ°; १अ°;
 धनुस्°, बोहिताह°, कल्पपुष्प°;
 परिवेषण- आचार्य°, इष्टि°
 परि/वु (आच्छादने) > परिवार-
 बट°, शुष्ण°, राप्र°, तद्°, ४स°, हंठ°,
 परिपृव- १अ°, पुत्रामार्य°
 परि/वृञ्ज > *परि-वर्ग- १अ°; *परि-
 वर्जन- मांस°, आच्छादक...°; ल°;
 पत्विर्लित, जा- बमार°, ददाति°,
 हमार°; परि/वृत् > *वर्ग-
 रद°; *वर्गमान-; *वर्तप- १अ°;
 *वृत्त- १अ°, जाति°; *परि

/वृष्प > परिवृद्धि- दोषफल°;
 फल°, त्तराष्ट°; परि/वेष्ट >
 *वेष्टि- > *त-क्षिरस्- १अ°
 परिव्याघ- उच्छ्रुष्णा°; परि/व्ये
 > *वीत-, *वीयमान- १अ°; परि-
 व्याण- रक्षना°; परि/व्यञ्ज >
 *व्याज- मद्रवारिव°; परि
 /शिष्प > *शिश- उक्त°, २एक-
 धन°; *शेष- अक्ष°, २एकधन°;
 *परि/ध्रम् > *ध्रान्त- मिज्ञा-
 यति°; परि/ध्रि > *ध्रयण-
 क्षेम°; *ध्रित- अनु°, आहवनीय°;
 परिध्रिद (-क)- ४स°; *ध्रित-
 १अ°; *परिपन्नक- श्लेढ...°
 परि/पद् > परिपद्- आचार्य°,
 पत्र°; परिपव्(-क)- ४स°; परि-
 /पिच्, ज्य > *पिन्धत्-
 १अ°; *पेक- द्वितीय°; *पेचन-
 उदृष्टम्, परिधि°, पर्युष्ण°;
 प्राशन°, भक्षण°; परि/पेषु >
 *परि-पेषण, न- उत्ततस्°, प्रतोद°
 परि/प्फ, स्कन्द > परिप्वन्द (न्य
 [यमा.]) - ऋषिनिवात°, गोष्ट°
 परिसंवत्सर- १अ°; परिसं-
 /ख्या > *ख्या- तदन्व°;
 परिसम्/आप् > परिसमाप्ति-
 १अ°, १काण्ट°, प्राप्य°, तत्किया°,
 वाक्प°; परिसम्/ऊर् > परि-
 समूहन- पर्युष्ण°, तमिप°; परि
 /सुप् > *परि-सर्षण- महीप°,
 सरस्वती°; *परि-सुप्त- इमि°
 परि/स्तु, स्तु > परिस्तरण- अभि°;
 अग्राधान°, प्रस्तर°, वेदिकल्प°,
 परितोर्ग- १अ°; परि/स्वन्
 > *परि-स्वन्द- १अ°
 परि/सु > *परि-स्य- पैतृसैल°;

a) परिपशब्दा- > -न्वे इत्यस्यानुकरणम् । b) वेप १ द. । c) पृ २२४४ h. d. । d) = परि-
 रथ- । e) पशे. पृ २६०२ j. d. । f) = श्लेषवि-निशेष- ।

*परि खाव-राजाम्बुद°, भाराष्ट्र°, शोकिताष्ट्र°, *परिसु(व)> ता-
 १अ°, परि/हृत् > परिष-
 १अप्र°, १अक°, इन्द्रवील°, भद्रुष्ट°
 परि/हृत् > हास- चर्चा°
 परि/हृत्, परि/हृत् > हरण-
 कृत्या°, तद्°, रमाय°, शोकत्र°, वसती-
 वरी°, सप्तस°, इतर- १अ°, हार-
 रणनीड°, हिसानुप्रद°, हार्य- १अ°
 *परि/हृत् > परिहृत- १अ°
 परी(रि/इ), परीहि आपम २, १,
 १०१°, परीह- १अ°, अहनाया°,
 कामभोग°xx, *परी(रि-इ)र-
 १अ°, पर्वयण, न- आशोचन°, दुगु°,
 योतायज्ञ°, *पर्यै(रि म)विद्-
 इ-त°, पर्वाय- अत्र°, उग्रध्व°,
 उग्रती°xx, *पर्याय विधान- १अ°,
 पर्यायान्त- पर्यायादि°
 परी(रि/इ)श्च > परीक्षा- १वास्तु°,
 परीक्षित, ता- १अ°, परीज्या-
 सौम्य°, परी(रि/इ)प् > परीष्टि-
 निमित्त°, शोभ°, *पर्व- अष्टुष्टि°,
 यवा°
 पर्यप- उत° २वीत°, *पारुष्य- १दशक°,
 गार्हपत्य° वाच°, परुष- वाता°,
 कृष्णुष्टि°, इष्टुष्टि°, *यस°, वैश्वदेव°,
 ज्ञानासीरीय°, साक्रेभय°, परे(रा
 इ) > १परावण- छा:नविद्य°,
 १एनाप्रि°, अगाह° तद्°, २अम°,
 प्राख°, स्ताष्यायकथा°, परीस-
 परा/वप्(परि)द, परीष्णाह-
 सुरत्°, पर्ये- पर्यिन्, पर्ये-
 च्छुत्(परि)द, पर्ये- अग्नी°,
 मरु°, माहत्° वैश्वानर°, २पर्व°

पार्ये-व- वैधानर°, वैधानरीय°
 १पर्य- १अ°, अष्टिउष°, १अर्क°xx,
 *२पर्णी- राजतुल°, राजगृह°, इरिदु°,
 पर्येताता- वहु°, १पर्णी- पर्ये-
 त्ति- अभि°, पर्येति/हृत् > कण-
 अपिधयन°, पशु°, कृत्- १अ°,
 पयवप°, पर्ये- माहत्°, २श्रेप°
 पर्यै(रि/इ)श्च > *पर्यै(रि-म)क-
 नीललोहित°, पर्यन्त- १अ°,
 मयवर्ग°, अर्ष°xx
 पर्ये(व/इ) > पर्येव- १अ°
 पर्यै(रि/इ)श्च > पर्येव- >
 *पर्येव पाह- दमन°, पर्यास-
 अतुष्ट°, आरम्भणीया°, उग्रय-
 मुखीवृत्°, द्वितीय°, ४अ°, लो-
 श्रीय°, पर्या/मम् > पर्यागत-
 सवस्तर°, पर्याण- १अ°
 पर्या/णश्च > णहृत्- सोम°
 पर्या/घा > *पर्या-धात्- उग्रहा-
 क्षिन्°, तस्कर°, पर्याहित-
 अभिमिसुक्त°, कुण्डाक्षिन्°,
 तस्कर°, *पर्याहित-वेनु- तस्कर°
 *पर्याघारक- वेडे" २°, पर्या
 (रि/इ)श्च > पर्यास- आहुति-
 द्वय°, *पर्याय १अ°, पर्या/वृत् >
 *वर्तमान-, *वर्षयत्- १अ°, पर्यु
 (रि/इ)श्च > पर्युक्षम- परिसम्-
 हन°, समिदाधान°, समिच्, *पर्यु-
 क्षित- नवा°, पर्युद्/अस् >
 पर्युदाह- १हृत्^२
 पर्युष्य परि/वप्(परि)द
 पर्यु(रि/इ)प् > *पर्यो(रि षे)
 पण- २वेदि°, पर्यु(रि/इ)प् >
 *पर्युष्ट- हृत्, पर्यो(रि मा/इ),

पर्वेहि मापृ १, २२, ७°, पर्वे- १एक°,
 त्रि°, वि°, २पर्वत- अमरकष्ट°,
 वृप°xx, *पर्वत-गुह- शृन्वागार°,
 *पर्वत-सातु- २वन°
 ३पर्वत- इन्द्रा°, पर्वेत्- अ°, अष्टुष्टि°,
 अष्टुष्टुष्ट°, अनेय°xx, पार्यण- ४अ°,
 *पर्व-भाग-अतीत°, *पर्व-दिलोप-
 १अ°
 १पर्यु- १अ°, अमपुह°, अन्तद्°,
 १अरत्°, वृप°, पार्ये- अन्तद्°,
 अन्यद्°, अन्तु°xx, *पार्ये-भाग-
 चतुर्भित्ति°, *पार्ये(रि म)
 म- ४अ°, पर्ये- > पार्ये-
 आर्षी°, धन्वन्तर°, धन्वन्तरी°,
 धानन्तर°xx, *पार्ये- हृत्,
 विप्र°, विष्णु°, वैवरवत्°, २पल-
 २अष्टक°, १एव°, त्रि°, हादशक°,
 पदाशत्°, नवा°, शत°, पौडशत्°,
 चात्, *पल-ह- द्वाविंशत्,
 *३पल-वेनु°, ३पल- १रि°
 *४पल- वहिन्, वहिष्, पलद-
 कथा°, पलल- १दधि°, वृतीक°
 पलाशु- २अष्टक°, वर, व ३°,
 निम्ब°, लज्जुन°, सुरा°, १पलल-
 ३वाक°, शलि°, २पलल- अष्ट°
 १पलाश- अमृत°, १अर्क°,
 १असत्°xx, पलाशशाखा- वृत्°
 १पलित- वा, पाप ५, २, १२७
 [च- २असित°, युवन°, २वती°],
 *पलित-करय- पा ३, २, ५६,
 *पलिते भविष्णु-, *भायुक्त- वा ३,
 २, ५७, *पलपूडि > पलपुन-
 १उत्तर°, वासत्°, पलपूडित-
 १अ°, अम्बकान°, सु°, २पल्य-

a) पृ १५३२ परि/हि > यनि द । b) पृ १८० सत्य अनुपरीहि, तत्रत्य टि च नेष्टम् ।
 c) = पर्व- । d) पृ १५३५ यनि संरथासवेत द । e) पृ १५३८ यनि सव्यासवेत द । f) = परि-
 वाह- । g) यनि पृ १५३३ द । h) तत्रतापवीय यद् त्र (वा ४, ४, १८) । i) = पू- ।
 j) यनि सल-शोप ।

धान्य°, रज्जु°, १राशि°, पल्लव-
 पाणि°, लता°, लताघ°, लोकेठी°, ४र°
पल्लव- धान्य°, पवि- धुर°
✓पशु अति°, अतु°, अग्नि°, अग्निवि°,
 अव°, आ°, २उद्°, परा°, परि°,
 प्र°, प्रति°, प्रवाम्°, वि°, सम्°,
 पशु, पशु- उग्रम्°, सूर्यम्°,
 पशुवत्-, ०ती- १व°, पशुवन्ति
 १वान्त°, पश्यमान-, ✓पशु(वन्धने)
 वि°, १पात- १व°, अशुष्ठ°, अवि°,
 अन्°××, *पाद-लेदन-उद्वन्धन°,
 *पात-पञ्जर- विहीन°, *पातन-
पशु- १अ°, आग्नीधेयि°, १अज°,
 अतिराज°××, पाशुक-कात् आपशु
 १४, १५, १६ [०क-इत्यादि, ऐङ्हि°],
 उदाह्य, घ्या- १अ°, परि°, पशु
 (-क)- १अ°, १एक°, पशुकाम-
 प्रायकाम°, दीर्घ्याधि°, प्रजाकाम°,
 वैद्य°, स्वर्गकाम°, पशुवृजय- १अ°,
 *पशु-ग्र- वृधा°, पशुपति- २अव°,
 गहृ°, पशुपाल- कर्षक°, पाशु-
 पाल्य-, *पशु पाल्य- कृवि°, पशु-
 पालन- श्वधयन°, पशुपुरोवाह-
 श्वधीपोषि°, चर°, गुणरति°,
 २२शा°, ४त°, २साना/क°, पशुवन्ध-
 इष्टि°, वातुमार्य°, निरु°, सनेष्टि°,
 पशुवन्धयामिन्-, *पशु-याचिन्-
 १अ°, *पशुयुद्ध- प्रजायुद्ध°,
 पशुवद्ध- २मान°, पशु, श्वा १अप्र°,
 १उपा°, १दक्षिण°, *पशु दध्यद्-
 १अ°, पशुवत् १उत्तर°, १पादपल्य°,
 तद्°××, *पशुवत्-उपचार- र-
 आधारी १६, २१, १२, वैशी १८,
 १७, २, द्विपी ११, ७, १३, *पशुवत्-
 दध्यद्- १अ°, पश्चिम- १उत्तर°, १

१दक्षिण°, दक्षिण°, प्राव्°, गन्ध°
पस्य- १वाज°
पस्पज्ञान- प्रथ ✓स्पृश् (परि) द
✓पा (पाने) अतु°, अतुलम्°, अग्नि°,
 उपा°, निम्°, प्र°, प्रति°, वि°, सम्°,
 *२ए- ३आज्य°, १अमन्°,
 १अच्छ°××, पवित्रम्- १अ°, *२पा-
 कौलात्, प्र°, १शुवि°, १शुत°, सोम°,
 *पाद°- आ°, १पान- १अ°, इन्द्र°,
 अनेयवन्त्°, अन्तरस°, आहार°××,
 *पान-भय- १चतुर्थकाल°, *पान-
 भोजन-उत्पृष्ट°, पानीय- तमिहित°,
 पान्त°, *पाय, पायन- वन्धन°,
 *पायिन्- अमृमय°, अशुरामय°,
 १उत्तर°, तैल°, *पाय्य, *पायव-
 १कुवत्°, *पाय्यमान-, *१पावन्-
 १धर्म°, पृष्ठ°, वसा°, विपान-,
 विपासा- अशनया°, अशना°,
 अशनया°, अम्°××, पिबत्-,
 १पीव, ता- १अ°, अग्नि°, वासित°××,
 पीवि- पूर्व°, २व°, सह°, सोम°,
 *१पीय- इन्द्र°, गो°, सुरा°, सोम°,
 पेय, या- १अ°, १अत°, १अन्°, १वाज°
✓पा (रज्जवे) अग्नि°, अग्नि°, प्रा°, नि°,
 निम्°, परि°, प्र°, *३ए- हरिद्°,
 २द्°, गो°××, १पा°, २पाक-
 अतु°, ✓पाळि परि°, प्रति°, १पाक-
 १अज°, अजमहिपगो°, १अर°××,
 पाकी- मणि°, १वास्तु°, पाळक-
 द्वार°, *पाळिका- गो°, पशु°, पाळन-
 पशु°, प्रजा°, सिवया°, *पाळयद्-
 १अ°, *पाळि- २अज°, *पाव्य,
 *३पा- अक्षत्°, अज°, अवान°××,
 *३वान-°, *२पावद्- अग्नि-
 शक्ति°, अग्निशक्ति°, ३तन्°, *✓पा

(शोधने), *३पाव(न>र>)री-
 प्रति°, ✓पा° १उद्°, पांशु->
 *पाशु-शोधित-मासा- (स-अ)
 स्थिक सद्घिलाज-गौर-वर्ष-
 निपात°, पांशु- अक्षर°, अन्°,
 उपरव°, उपल°××, *पाशु रनात-
 उत्तरप्रा ण°, पिपाक(ल>)ला-
 उत्तरव°, पाजस्- १अ-अतु°,
 चित्त°, १शुशु°, पाञ्चालेय- २५धा-
 ल- (परि) द, पाट- ✓पद्
 (परि) द, पाटा- १धीरीदन्°
✓पाटि, पाटि-, पाव्य✓पद् (परि)
 द, पाटिन्- ✓पद् (परि) द.
पाणि- अनवनिष्क°, अविहित°,
 १अरवि°××, पाणिग्रहण- १अ°,
 अतुसगमन°, पाणिपाद-अग्निविक°,
 प्रकालित°, प्रकालिता-भय°××,
 *पाणि-पाद वदन- सुवकाशित°,
 पाणिप्रक्षालन- वेदिकरण°, *पा-
 ण्य (वि-अ) इत्युच्- समस्त°
१पाण्डु- आशेष°, *पाण्डु-कपोत-
 विपुनिष्कर°, *पाण्डु-शुभ- ३वक°
२पाण्डुर- किञ्चित्°, क्षीरीद-
 त°, धूम°, समुगल र°, ३रक्त°,
 खेत°, पाण्डव- तार्थ°
पातिन्- प्रथ ✓पत् (परि) द.
पान- १अ°, १अशु°, अग्निहोत्र°,
 अतिप्राद्य°××, पात्री- आज्यपान°,
 १इजा°, उद्°××, पात्रससादन-
 परितारण°, पात्रसादन- विररीत-
 दर्मात्तरण°, पादक- प्रथ
 ✓पद् (परि) द
पाप- १अ°, मप°, आत्मन्°, उपा°××,
 पाप(क)- १अ°, पापकर्मन्- पूर्व°,
 पापलक्षण- रामोत्पत्°, *पापा(व-

a) पृ १५५० अत्र स्पष्टे पृ ६ । तत्र च 'पशुविनष्टवत् > कृत्' इति पठनीयम् । b) = पाशुपालन- ।
 c) वैप १, ११११ । d) पृ १५५० अत्र सख्या भेदा । e) वैप १ द । f) पृ १५५१ अग्नि. सख्याधरेत.
 द । g) पृ १५५१ अत्र सख्या भेदा । h) = पात- । i) अर्हीर कृत् । j) वैप २, ११० । द ।

क्र)मं-सर्वं, पापीयद्- पदवा°,
 प्रोष्व°, *पापीयसा(सा-अं)वसेखन-
 धमिसु न°, *३पापनामन्°-
 न्यप्रोष्व°, पापमन्- अपहत°,
 छुप्°, उग्र्य°xx, रपायु-
 १३वस्व°, १पाठ्य°- १कस्°
 १पाप°- १अ°, श्रति°, अन्त°xx,
 पाग- श्रति°, २वव°, वेदवेदाङ्, १
 वेदान्त°, शान्ति°
 २पाप- ✓पृ (परि) ६, पारा-
 यण- श्यययन°, अनस्त°,
 ऋतुसमन°°, च्छृ°, मत्°
 पारावत- नेत्र्य शाश्री १२, १६, १°
 [च- ३वव°, विवृक्किक्क°, वृत्°]
 पारियात्र- ३शक्ति°, पाठ्य-
 पदप- (परि) ६, १पार्थ- चं
 वीधौ १८, ४९ ११, *पार्थश्रवस्-
 गतयं°, *१पार्थक°- ४स°
 पापुंक्- पृष्ठ (परि) ६
 १पापिं, प्यौं- १वाक्°, सपृचा°
 *पालक्या- विष्णो°, पाव-
 ✓पृ(परि) ६, *पावनि(ि)तल
 रद- १प्रद्वरक त°, *पाञ्-
 विमुक्°, पाशन- ✓पृ(य-भने)
 परि ६, पापण्ड- तस्कर°, २वेद°,
 *पापण्ड भृषिष्ठ- नश°, पापाण-
 १अ°, राण्°, विष्णु°, २शरत्°
 *१पाण्डेतस्य° वापुधौ ३ ४१ २३
 ✓पि, पी अभि°, आ°, ३°, १पीन
 ना- व्याग°, १पिङ्ग- १शुष्ण°,
 १पिङ्गल- ईश्व°, वनव°, १पृष्ण°,
 तारी-नाथत°, १वसु°, महत्°,
 सेत°, २पिङ्ग- २हरित°, पञ्च-
 महत्°, ३पिङ्ग- वज्र°, *✓पिच्

(विरतारे) २उद्°, सम°, *पि-
 च्छक- शाटी°, ✓पिञ्ज पाधा
 सुरा पर हित वलादाननिकेत-
 नेषु, पिञ्जर- १शुक्°, पिञ्जील-
 १दर्म°, पिञ्जु(ल)> 'ली- १दर्म°,
 २पिञ्जूल- 'ली- १शुक्°, १दर्म°,
 ४स°, *पिञ्जूलि- १अ°, पिट-
 > १पिटक- मनुष्यपुंशुं°, *पिटिका-
 १शौ°°, पिटर- स्वाली°, पिठी-
 नस्- > पैठीनसि- महत्°
 १पिण्ड- अयस°, अतु°, १अयस्°xx,
 *पिण्डक- कन्दूक°, *पिण्ड-
 क्रिया- प्रेत°, पिण्डनिर्वाप-
 अजदान°, पिण्डवितृषज- आ-
 प्रययु°, *पिण्ड-मात्रा- स्वभर्तुं°,
 पिण्डवर्धन- ऋतुसमन°°, प्रवा
 सागमन°, *पिण्ड स्वधा- १पृव°
 *पिण्डालुक- विष्णो°
 पिण्याक- आदीपविष्°, १कृष्°,
 १लवणु°° निलयन°
 पितृ- तृणम् आधौ ३, ६, २७° [°त-
 १अ°, आम्°, आचार्य°xx], पैतृकी-
 महत्°, पैत्र- दैव°, *पैय- आ
 दिव्य°, पितामह- १जोव°, जीवत्°,
 तद्°xx, पितृ(न्क)- १अ°, ६नेव°,
 १जोव°, जोवत्°, ४स°, पितृकार्य-
 आदादि°, *पितृ-क्रिया- जव°,
 *पितृ जातृ- जातृ°, १पितृमेघ-
 म-ममाग्रणवल्°, पितृशत्रु- १विस्व°,
 महत्°, पितृपाण- देवयान°, *पितृ-
 रात्र- *पितृ रात्र य-४त°, पितृव्य-
 आचार्य°, ऋत्विग्°, ज्येष्ठश्रातु°,
 रात्र्°, स्वपुर°, *पितृव्य भावा-
 मातृ°, *पितृ धत- चीण°, पितृ-

प्वस्- मातुल°, मातुलानी°, मातृ
 अस्°, *पित्र- मक्षयव°, *पित्रा(रु
 आ)य- तद्°, पिय-छेयन°, दैव°,
 रक्षत्°, सु°, पित्त- १दृम्°,
 १वात°, पैत्तिक- कुण्डिन°
 *पित्व(त व)- अभि°, पि ✓घा>
 पिधान- २साम्नाय°, ✓पित्व
 अभि°, पित्वमान- १अ°, पिपीलि
 का- अरुण°, अरिष°, १कृष्°xx
 १पिप्पल- कोविदार° उ°,
 पिप्लद-> पेपलाद- सौद°
 *१पिप्पलि- गात°, ३पिप्पली-
 विरयनामि°, मन्त्राह°, पिलक°-
 १अष्टत्°, ४य°, ✓पिप्, पिप्
 आ°, वि°, *विंशत्-, *विष्- शुभ°,
 विंशत- १अ°, १आम°, तिल°,
 यूप°, लोहितजा°, विष्णु- १अ°,
 पैशुन- १अ°, अनाज्व°, पैशुन्व-
 विवाद°, पेसा(यमा १- उरस्°, माह°,
 पेसी- मास°, पेसल- तिल°,
 पेसास्-शुक्°, सु°, हिरण्य°, पिशङ्ग-
 अरण°, १कृष्ण°, चम्प°, शकली°,
 २सित°, पिशाच- १अप° मह°,
 मुनि°, रक्षत्°, पैशाच- राक्षस°,
 रौद्र°, *पिशाच धीत- १अ°,
 २गिशील- > लवीजा-मल्लभुं
 बोणा°, महाबोणा°, *पिश्च- तिल°
 ✓पिप् अतु°, आ°, २उद्°, नित्य°,
 प्र°, प्रति°, वि°, कम्°, पिष्ट, धा-
 १अ°, १अप्रनीहार°, अर्थ°xx,
 *पिप्च, १पप°- १आम°, पेपञ्-
 १अ°, अवहनन°, धपण°, सर्व°,
 *पेपत् उद्°, चूर्ण°, १हश° शुष्क°,
 २प(प> पी- हविष्, पेपिस्-

a) = २७ विनय (शुष्मातकः) । b) पृ १५६७ यान सख्यालेख्य द । c) यनि स्थल घोष ।
 d) व्यप । e) नैप <पापदक- । f) = श्रेयधि विनय- । g) पाठ २ (तु सवा मास ११, ५, २, ६) ।
 h) = २पिञ्जुल- । i) यान वैप १, १५०६ b द । j) नैप १३ । k) पृ ४४४ f द । l) अर्मदित्त
 = वि१३- । m) पृ १५६२ यनि सख्यापथे द ।

वर्णकः, पेशवै, पीठ- अर्चा, गो,
 १पाद, मद्र, ✓पीह् अतिनिस्,
 अक्षि, आ, उप, उपनि, नि,
 निस्, न, *पीठ- पीठक- चान,
 पीठन- अल्लुली, देतु, पीठयन्,
 *पीठय, *पीठय- १अ, अमाल,
 पीठा- ग्रहनक्षत्र, ग्राम्यपञ्च, xx,
 पीठित- १अ, उपदव, xx
 २पीत- १धून, मपुर, ३रक्त, खेत,
 पीतक- १नील, रवेत, *पीत- पक्ष
 इयाम- ४स, *३पीत- तिवर
 १पीथ- ✓धा (पान) परि द.
 २पीथ-, ✓पीथ > पीथु- १देव
 पीला- > पैल- डेमिनिस्,
 सुमन्तु, पैल- इयापर्वेय, पीलु-
 १अ, भोविदार, पैलव- आरव-
 ल, १वैर, *पीला(लु-आ)दि-
 १अ, *पु- उ, *पुञ्ज- > पुञ्ज
 (स्व-धा)दि- १अ
 पुञ्जली- जल्लुट, निमित्त, १नर,
 रन, १पुञ्जलु- १अ, पुञ्ज-
 अ-य, पु, ली, पुञ्जि- नि, पु
 चव > *पुञ्ज- १जोप, २त्पर,
 पुनक्षमप्रविषेय- सिद्ध, *पुञ्ज-
 रूप- अ-त, पुञ्जवन- ऋतुगण-
 मन, गर्भधान, गर्भोदन, निपठ,
 पुञ्ज(क)- भावित, पुञ्जव- १अ,
 पुञ्जव- २अक्षर, पुञ्ज- पुनर,
 ली, *पुञ्जस- अनेभ,
 पुञ्जसो- बाण्डाली पुञ्ज-
 अति, अण्डुह, २उद, १उद-
 व, xx, पुञ्ज- २अक्षर, ५पारा
 पुञ्जली- १दम

१पुट- १अ, अत्रति, अस्थि,
 २आस, xx, पुटापुट- > पुटिका-
 पापग २ १, ६-
 पुण्डरीक- द्वादशन्, सुत, १पु,
 हदव
 २पुण्ड्र- ऊर्ध्व, नि, पोण्ड-
 १भस्मन्, पुण्य- अहस्, १कृत,
 क्षीण, xx, पुण्यहृत्- १अ, पुण्य
 जन- १सर्प, *पुण्य- दिन(न-ह)
 क्ष- अक्षर, *पुण्य- खेत- देवहृत्,
 पुण्यह- उदयवन, २उत,
 क्षान्ति, सु, २द्वयव्य, *पुण्यह-
 धोष- द्विज, पुण्यदवाचन-
 स्तानपवनमन्त्र, पुञ्ज- न. शंष
 २८६ [न- १अ, अति, अजा
 त, xx], पुत्रो- १उप, स्थि, xx,
 १पुत्रिका- अति, पुत्रिकापुत्र-
 कालीन, क्षेत्र, हल्लेय, पीत्र-
 क्षति, पुत्र, प्र, ४स, रजो,
 *पीत्र क- पुत्र, *पीत्रायन- पा
 छ, १, १००, १पुत्रक- अन्तक,
 ४स, पुत्रनी- १अ, *पुत्र-
 लीक- सुचर्ण, पुत्रपौत्र- उद,
 पुत्रभाषा, पुत्रक्षिप्य, *पुत्र-
 क्षिप्य भाषा- आचार्य, *पुत्र-
 पुत्रादि- उद, पुत्रिया- पुत्र्या- १अ
 पुनर, २पुन पद- १अ, पुनरापान-
 उद, पुनराधेय- अन्त्याधेय,
 अदि, उद, पुनरापान, न, *पुनर-
 अक्षय १अ, पुनरुक्त- कन्,
 नि, पुनरुक्ति- नामन्,
 *पुनर- भव- १अ, २२२२, पी
 नमय- कानन, पुनरापान,

१देव, २००, तस्कर, पुनर्वचन-
 तस्य, *पुनर वपङ्कार- आभार,
 १पुनर्वसु- १तिष्य, २पूर्वाक्षर,
 रोहिणी, पुम्- इस्
 पुमोमपु- १अ, पुला, राजन्,
 ली, १पु- १देव, २पु- ✓पु
 (परि.)द, ३पु- पाग छ, २, १०
 [२- अन्तर, १अरिष्ट, अर्थ, xx],
 पुरी- २लक्ष्मा, वीर्य- पा छ, २,
 १०, ४पु- ✓पु (परि) द,
 *पुर इतरा द्विधी १छ, ६, २४
 *पुरह- मपुरा, पुरनिधि- र्भव
 पुरस् नमस्, पुरउपनिह- उणिह,
 पुरस्/ह > पुरस्-कार- २धर्म,
 पुरस्ताव १अ, अग्निमा, २,
 १उतर, xx, पुरस्ताज्ज्योतिष-
 श्रद्धधन्तर, पुरस्तात्सोम- १अ,
 ४०, *पुरस्ताद्-कारम्भ- मभम्
 बाधी १, १, १०, पुरस्ताद्दोम-
 सव, *पुरस्ताद्-मयो (ध-उ)
 परिहाज्-ज्योतिष्मती- न्य उनिस्
 १ ६०, पुर सर- अग्नि, लघु,
 पुरोग- प्रयाति, पुरोगम- अति,
 गन्धर्व, मयुपर्क, पुरोगव- १अ,
 पुरो/धा > ४स- पुत्रराज,
 पुरोधा- तज्ज, पुरोहित- १अ, शा-
 बार्थ, इन्द्र, xx, पुरोहितप्रवर- १अ,
 पुरो(स्-अ) तुषाक्या- वाज्या,
 ४स, पुरोहित, पुरोरु- कयल,
 वाज्या, शुक्र, पुरोरु- (क)- १अ
 पुरा यथा, यावत्, पुराञ्ज-
 पररती, पुराण- आक्षान,
 इतिहास, पुरेवात्, भविष्यत्,

a) भाप । b) वेप २ द । c) पृ १५८३ यनि सख्यासंकेत ३ । d) पृ १५८४ 'ल्ल्या' > यनि.
 ३ । e) = पवर्ग । f) = पुल्लती । g) = पुल्ल । h) = निप्लुल । i) यनि, स्थत तोष ।
 j) यम वा इत वा । k) उप भाषे वा स्त्री वा । l) पृ १५९४ यनि सख्यासंकेत ३ । m) पु पापम ।
 n) वाट ? सत्र आरधी २२, २४, १ देवपुर- > पुता इति । o) = देव-विषेय । p) यम. वा. इति ।
 q) (१पु-न) > यान ६ ।

वामोवाक्य^{००}, रेवे^{००}, पुरीतन्-
 क्लोमन्^{००}, पुरीप, पा^०- १अ^०,
 अथस्त^०, अथाव^०xx, *पुरीप-विच-
 पन-चनन^०, १पुरीपपद- ४स^०
 १पुह- लेप^०, पुरकुस- > पौर-
 कुस्य- त्रैशु^०, पुरमीड, सह-
 तन्त^०, सुरीति^०, *पुर मेघ^०- मृमे^०
 पुरुप- अधि^०, अध्वर्ध^०, अध्वर्ध-
 तृतीय^०, अध्वर्ध^०xx, पुरुरी- १अ^०,
 पौरप- दशद^०, पुरुपकल्प- नाना^०,
 पुरुपमेघ- औवासुवाक्य^{००}, पुरुव-
 विप, धा- १अ^०, पुरुपसस्कार-
 दौशुणीया^०, पुरुपसूक्त-विशुक्त^०,
 पुरवाधराय^०, *पुरुपा(प-अ)/मिदी
 वा- १अ^०, १पुरुपाय- कर^०,
 *पुरुपाय- कृत्-व- कर्म^०
 पुरोडस- पावा^०, पुरोडाश- १अ^०,
 धानियमरुक्तीव^०, १एक^०xx, पुरो-
 डाशित^०- १अ^० ✓पुल् > *पोल-
 पा ३, १, १४०, पुलाक- स्वावी^०
 पुलिन- > *पुलि सङ्ग- दिव्य-
 नदी^०, पुलिन्द- श्वर^०, पुलकस-
 अमेघ^०, प्रायोग^०, मृषविशिष्ट^०
 ✓पुप् (पवा)^०, *पोपस्व आश
 २, ८, १६०^०, लीग ३, २, ३^०
 [अगु, प्र, वि, सप्], *पुप्-
 निज्ञा^०, *पुपि- सहस्रोप^०,
 *३पुप्^०, पुष्, धा- निय^०,
 वडु श्रुता^०, श्रुतापर^०, पुधि-
 १अ^०, चानि^०, सत्वा^०, तु^०, स्वर्ग^०,
 वीष्टिक- अन्ति^०, पुष्प- अमि-
 चि^०, १तिष्प^०, १वीर- मार्ग-
 वीर्य^०, १वीर्य^०, पोप- १अ^०,

अपरिमित^०, गो^०xx, *पोपक-
 दारापत्य^०, १पोपन- श्व^०, पति^०,
 पशु^०, योनि^०, *पोपम् रति^०,
 १स्व^०, *पोपस्- विद्या^०, सह^०
 पुष्कर^०- अमृत^०, अह^०पुष्पवर्ष^०रत^०,
 पुष्करवर्ण- रूपस्तापामि^०, १शृणा-
 विन^०, पुष्करसद्- > वीष्क-
 सादि- प्लाक्षि^०, पुष्करसादि-
 कारव^०, पुष्करिणीपर्व^०- १एक^०
 २पुष्कल->पोष्कल- १तक^०, सभ^०
 १पुष्प- १अ^०, २अक्षत^०, १अक्षतो
 दक^०xx, *पुष्प-करण- उपरि^०,
 *पुष्प प्रसव- अवाल^०, पुष्प-
 कल- विनि^०, पुष्पाच- नव-
 वस्तोत्तरीय^०, *पुष्पो(ध-उ) श्वार-
 १कृत^०, ✓पुष्प > *पुष्पव-
 साङ्ग^०, पुस्त(वशा) > *वीष्टिक-
 तस्व^०
 ✓पू अति^०, अमि^०, आ^०, स्वद्^०, निम्^०,
 परा^०, परि^०, प्र^०, प्रतिनि^०, वि^०, सप्^०,
 समुद्^०, पवण, न- ३अक्षन^०, १चरड^०,
 स्नान^०, पवमान- १अ^०, अन्ना^०,
 धाप > प^०xx, पावमान->नी-
 धातव^०, *पवय्य, पवित-, पवित्र
 (वशा)- १अ^०, १अम^०, शजाविलो-
 मन्^०, १कवी^०xx, *पवित्र-करण-
 विपरीतदर्भास्तरण^०, *पवित्र पादु-
 का- १अ^०, पवित्रेष्टि- महत्^०,
 *पाव-, २पावक- १अ^०, आनीय^०,
 १भोमय^०, देमन्^०, पावव- २उपाशु^०,
 तद्^०, पशिका^०, मुष्टि^०, पावनी-
 लोड^०, *पावम्, *पाव्य, पाव-
 मान-, पुनवी-, *पु-या-, *पू-

(वशा.)^०- अमे^०, उद^०, वेत्^०, पृ^०,
 तु^०, पूत, ता- १अ^०, अस्मोष^०,
 निम्^०xx, पूतभृत्- १आधवनीय^०,
 *पूत भृत्- अधि^०, *पूतवत्- पाव
 ८, २, ४४, *पूव, *२पूव- ३^०,
 पूवमान, ना-
 पूव- गण^०, जाति^०, १वर्ष^०
 ✓पूज् अमि^०, प्र^०, प्रति^०, सप्^०,
 सममि^०, पूजक- १अतिपि^०, देव^०
 पि^०, देव^०, त^०, पूजन- १व^०,
 १अतिपि^०, गुरु^०xx, पूजा- अमि^०,
 १अतिपि^०, श्रुपम^०xx, पूजित-
 १अ^०, १देव^०, राजन्^०, सर्वगुण^०, सु^०,
 *पूजिन्- देव-रूपि^० ०^०, पूज्य,
 पूज्य- १अ^०, पूतदार- १गता^०
 *पूतिखप^०- १गोधा^०, *पूति-
 दार- > पूतिदावा(ध-आ)धान-
 अन्त^०, *पूतिमाप- सङ्गति^०
 पू. ति। तीक- आशु^०, १गोधा^०,
 १दर्भ^०, यूक^०, *पूतीकखप^०-
 १गोधा^०, पूतुद्- > पूतुद्रव-
 विरुद्^०, ✓पूस् > २पूति-
 श्च^०, *पूस्(ति अ, अ- १सत्वा^०,
 १पूस्- २केर^०, मूस्^०, स्वेमस्^०
 ✓पूस् पाथा दिवा आत्. श्रुपायन
 १पूर^०, २पूर-, पूस्, पूग्निदुः
 ०वा, पूरिका- ✓पू (पारि) द
 पूरुप- १अ^०, किम्^०, दसव^०xx,
 पूरुपन्न- १अ^०, पूर्य ✓पू (पारि) द
 पूर्य, पा- १अ^०, २अ^०, अन्ना^०, अमि-
 होन्^०xx, पूर्य(क), रिक्क- अमि-
 मन्थन^०, अन्न^०, २अमति^०, अर्थ^०,
 अकार^०xx, पूर्यनाड- १अ^०, पूर्यव-

a) अर्धवादिप टथ (पा २, ४, ३१)। b) जप. (त्राधि-)। c) पा > यनि. द.। d) ३
 २१३० [द.। e) ३ १६०८ [नेट्मू। f) तथा आपम २, १५, २ वाच्यस्य इति, वाग् ३, १ माप २, ११,
 १२ पोपस्य इति च पमि। h) वैप १ द.। h) ३ २५८० अ द.। i) ३ १६०८ यनि सख्यास्येत इ।
 j) वैप १. २१४२ ज द.। k) सख्यास्येतो निर्देश द.। l) कर्वाचधे कृत्। m) =अन्तुविशेष।
 n) ३ १६१० यनि. सख्यास्येत इ।

इष्टि°, १५२°, पूर्वसावर्ण्य°, *पूर्व-
नङ्क- दक्षिणपश्चिम°, सध्यसावर्ण्य°,
पूर्वनिपात- १३१°, पूर्वपक्ष- उदय-
वन°, उदिका°°°न°, पाल्ना ६°,
गावत्°, *पूर्वपक्ष (स-स) दूर-
उदयवन°, पूर्वपक्ष- सद्यःश्रीता°,
पूर्वपद- १३१°, अन्तर°, अर्थ°××,
पूर्वपदान्त- १३१°, पूर्वपक्षोत्तरपद-
तद्°, पूर्वपर- १५२°, *पूर्व-
फल- उदयवन°, *पूर्व- उवा-
षाण्य°, पूर्वविधि- १३१°, पूर्व-
सावर्ण्य- उद्वि°, पूर्वाङ्ग- स्तरित°,
पूर्वापर- > पूर्वार्थपर्य- अष्टोदर°,
अर्थ°, *पूर्वार्थ-प्रयोग- अष्ट°,
पूर्वार्थ- १३१°, उत्तरार्थ°, दक्षिणार्थ°,
दक्षिणार्थ°, पूर्वार्थ- दक्षिणार्थ°,
पूर्वाङ्ग- सु°, पूर्ववर्ष्या- १३१°

✓पूर्व > पूर्व- १३१°, बहिष्°,
समिष्°, पूलास- गोपालधानी°,
१५२°, ✓पूर्व > पूर्व- आमा°,
इन्द्रा°, नदी°, पृथिवी°, सोमा°,
हरि°, शैवी- > शैवी-
पीण- आश्रय°, ऐन्द्रावरण°,
मैत्रावरुण°, सारस्वत°, सावित्र°

✓पूर्व, पूर्व अति°, अतु°, अमि°,
अभ्युद्°, आ°, नि°, निम्°, परि°,
प्र°, प्रति°, व्या°, सम्°, *रपर-
*परव- *रपार- चर्चा°, पारण-
*रपुर(परा) - आ°, नि°, निम्बु°,
परा°, *रपुर, रा° उद°, *रपुर-
दुता°, १५१° रपुर- अन्वयुद्°,
अर्थ°, आदि°××, पूरणी-
कस्त्य°, प्रधान°, १५२°, *पूणी

प्रियादि- १३१°, *पूरण-सादन प्रव-
सना(न-स)भिमग्नप्र- १३१म्भी°,
*पूरम् उदर°, ऊर्ध्व°, चर्मन्°,
दुर्ध्व°, *पूरयितुम्, पूरयित्वा°, *पू-
(रक >)रिका- दादशपत्त°,
पूरित- १३१म्, सर्वसमार°, १५१-
ता°, पूर्ण, गां- १३१°, अग्रति°,
अर्थ°, १५२°××, पूर्णदुग्ध-
मति°, पूर्वार्थ- > *पूर्वार्थ-
(र्व न)सुप्रह- १३१°, पूर्वपार-
१३१°, वृत्तोपायन°, पूर्वपार-
विष्णुस्म- ४२°, पूर्वमास-
पवित्रा°, तिष्या°, १३१°, १५२गुनी°,
१५१मास- १३१°, पूर्वमासी-
प्रमातरथा°, आश्रयणी°, नवा°,
मार्गशीर्ष°, पूर्णाहुति- ३१°, पूर्व-
इष्टा°, शब्द°, त्वद्°, उद्वि°, पूर्ति-
*पूर्व, पूर्वमास, गा- १३१°, *पूर्व-
(र्व >)र्वा°, पूज्य°, *पूर्य-

✓पूर्व, रपूर्(त >)का- गा°
✓पूर्व, पूर्व अधि°, अतु°, अन्°,
उप°, नि°, सम्°, *पूर्क- १५२म्,
*पूर्किन्, *पूर्वन- पूक- १३१°,
वर्ध°, सर्वोपधि°, पूर्व°, *पूर्चि-
पूर्च्य- *पूर्च्य-

✓पूर्व प्रकृष्ट अति°, आ°, परि°, प्रति°,
वि°, सम्°, *पूर्वकृष्ट- *पूर्वकृष्ट-
१५२- १३१°, स्वयम्°, पूर्व्य-
१३१°, १५२म्(वरा) - अतुप्र-
दिक°, १५२म्, कृष्या°, देव°××
*पूर्वकृष्ट, पूर्वकृष्ट- अधि°, *पूर्व-
अष्टा° हिरण्य°, ✓पूर्व आ°,
उप°, सम्°, *पूर्व, गा- निचान्त°,

१५१म्, सदा°, *पृषाका-
हरिण°, पृतना- एङा°
✓पृ, प्रथ् अति°, अतु°, अमि°, वि°,
१५२- अष्टगुण°, अति°, अम्यव°,
द्वयगुण°, १५२- अष्टगुण°,
१५२- १५२, पृथुमात्र- > *पृथु-
मात्री- अष्टगुणवर्ध°, *पृथु-
समिता- १३१°, प्रथन- १३१°,
जिह्वा°, नाना°, शेषम्°, प्रथम-
१३१° ४२°, *प्रथा- ४२°, प्रथि-
(त >)था- १३१°

पृथक्-पृथक्, पृथक्-अर्थ°, आशित्°,
आहार°××, *पृथक् अति°, *पृथक्-
जय- १३१°, पृथग्भाव- १३१°,
पातय°, २पृथि- > प्रथार्थ-
पृथिवी- अष्ट°, कालजपुर°, दिव्य°,
शावा°, २पृथिवी- १३१°, आश्रय°,
१दिव्य°, द्विज°, ४२°, पृथिवी°
वोध २, ६, १६, *पृथिवी कृष्ट-
मन्दि- १३१°, पृथिवी-सप्त- नम्
वोध २, ६, १२°

पृथुक्- कारिण°, २पृथिन- १३१°, नव-
नीत°, राजीव°, पूर्विकर्षी- पाठा°,
निवास°

✓पूर्व > पूर्व- १३१°, उद्वि°, १३१म्,
पूर्वो- स्थनी°, पृथुवाच- उत्तर-
वेदि°, पयम्°, ४२°, पूर्व- अत्य°,
सद्य°, पार्वत- १पौरव°, पूर्व-
१३१म्, पृथित- निपुर्°

पृषातक- १३१म्, पृष्ठ- १३१°,
अतु°, अतुपृथित°, अन्वाहार्य°××,
पृष्ठनामन-, *पृथ- १३१°, *पृष्ठ-
गिरस- १३१म्, *पृष्ठ शिरो

d) पृ १६२५ यनि सध्या सोच । b) पाषा ५, १, १११ परावृष्ट द्र । c) कर्तारि अण् प (तु
पाषा ३२ १) । d) वैष ३ द्र । e) भावावर्धे कृत् । f) पाषा तुवा आत्म व्यायाम । g) पृ १६३-
यनि उचवापकेत द्र । h) वर्तारि कृत् । i) पृ २७६ १ प द । j) पृ १५६६, १६३२ यनि सध्यासकेत द्र ।
k) अन् १ g > h द्र । l) विप (पृथिवीवर्तिन्- [अन]) । पृथिवी- + समा- (= लोके) > वस । सध्या हिष्ट २,
११, ४ असमासपुत्रय पाने द्र ।

श्री(वा)>र- भल्ल°, गृह्य,
 एग- इतु°, अमिच्छव°, आप-
 कर्ष°, उपरिहाव°xx, *पृष्ट देव-
 अमिच्छस्तोम°, पृष्टस्तोम- पृष्टव°
 +√पू(दिसायाम्), परिन्- परि°
 पेयम् √पय (परि) द
 *पैतृदाव°- गुगुलु°, पोषाण्ड-
 १अ°
 पोतृ- नेपृ°, प्रतिहृत्°xx, पोत्रीय-
 आ-धर्व°, पोळ- √पुल(परि) द
 पौण्ड- १पुण्ड- (पर) द
 पौत्रायण- पुत्र- (परि) द
 पौस्तिक- पुला- (परि) द
 √प्याय् व्ये आ°, प्र°, प्रत्या°,
 *प्य°- पाना°, *प्यात्, *प्याय,
 प्यायन्-, *प्यायमान-, *प्याय
 यत्-, *प्यायिते-, *प्यायिन्(>)
 नी-, *प्याय्य, *प्याय्यमान-
 प्र यद्°, *प्रा(प्र-अ)सि- -प्रिम्प्राय
 पुत्र ५, ३३, प्रादि- १३°
 प्र- √प्रा(परि) द
 *प्रउक्त काठश्री ८८, प्रउग-
 ३आज्य°, उभक्तवृ°, हिरण्व°
 प्र√कृष् > प्रकृन्- गन्धन°
 प्र√कम्प > *प्रकम्प- एतद्°,
 प्ररफित- अग्र°, प्रस्तु°, वायु°
 *प्र-फण्ड- गो°, प्रकाम- १६°
 प्र√काश् > प्रकाश- १अ°ताउत्°,
 तीक्ष्णशील°, यथा°, स्वयंकोत्°,
 ४६°, प्रकाशन- १शक्ति°, *प्र का
 (रक >)शिका- वेदकत्व°, *प्र
 कानि(र >)नी- सासुत्तरद्वयत्°,
 पाशना- हिरण्य°
 प्र√कीर्ति > प्रकीर्तन- तद्°
 *प्र√कुच, इच् > प्र-कुचन-
 अङ्गुलप्र°, अङ्गुल्यप्र°, प्र√कुप

> *प्र-कोप- माल्ल°, कषिर°,
 लाला°, १वात°, *प्र कोपन-व्याधि°,
 लर्वरोग°, *प्र-कूट(>)टा- गच°
 *प्र√कु, प्रप्र (कुल) काश्री ९, ६,
 १४, वौशी १७, ४ ५, अज २ ८,
 ६९, साअ १, ३६०, प्रकरण- १अ°,
 अतुम्भ्या°, मन्तोदात्°xx, प्राकरणि
 क-, *प्रकरणो(ण उ)त्पत्ति- १अ°,
 प्रकार- इत्त°, आहृन्न°, उच°xx,
 १प्रकृत- १अ°, प्रकृति- अति-
 जगती°, अनिगन्त°, अतुदात्°xx,
 प्राकृत- १अ°, प्रकृतिभार- प्लुत°,
 स्वप्न°, प्रकृतिश्वर- अन्त°, हृन्त°,
 पूर्वपद्°, प्रकृतिस्वरत्व- १अ°, विभ-
 क्ति°, प्राकार- उत्पट°, वेस्मन्°, ह्वरण्य°,
 *प्राकार तोरण- अग्र°, प्र√कुपु >
 प्रकदं- १काल°, १द्वय°, विद्या°,
 प्रकृष्ट-, प्रकृष्य १अ°, प्र√कृ
 (विधये) > प्रकीर्णी > *वेकेता- न्य-
 रतायुष°, प्र√कलुप् > *प्र-कल्पन-
 १द्वय°, इतिम्°, *प्र-कल्पना- १अज°,
 प्रकलुप्त- १अ°, प्रकृति- १वासत्°,
 पटी°, सह°. प्र√कम्प > प्रवम-
 क्त्वपर्व°, अर्थ°, अल्पपद्°xx, प्रका-त-
 १अ°, नानात्व°, पूर्व°, *प्र√कपु >
 प्र जाययत्- १अ°, *प्रप्रक्षु >
 प्रक्षि(न् >)णी°- उपल°
 प्र√क्षल् > प्रक्षालन- अर्पुति°, उप-
 वेदन°, कण्ठन°xx, प्रक्षालित, वा-
 १अ°, कु°, प्रक्षाल्य १अ°
 प्र√क्षि > *प्र क्षिप्त्- १अ°
 प्र√क्षिप् > प्रक्षेप- तण्डुल°, मुद्°,
 *प्र क्षेपि(र >)णी- उपल°
 *प्र√क्षु (= √क्ष [क्षि]) > प्र
 क्षय- १अ°, प्र√क्षया > *प्र-क्षय°-
 उ°, प्रयया- इन्द्रायुष°, गोक्षीर°,°

तद्°, फेन°, त्रिग्यामस्तजत्°,
 प्रक्षयत्-, *प्र-क्षयान-, प्रययापन-
 > *पनीय- १अ°
 प्रग- अति°, प्र√गम् > *प्र-
 गमन- कु°, प्र√गदम् > प्र-
 गदम्- १अ°, गेहे°, गोष्ठि°
 प्र√गृ, ग्रह > प्रगृह- १अ°, कुष्ठि°,
 *प्रगृह्य त्य- द्विवचनात्°, प्रप्रह-
 १अ°, कुत्त°, प्र√गै > प्रगाव-
 नि°, द्वि°, नाना°, न्याय°, १पप°,
 ४६°, १सामन्°, *प्र-गान- १अ°
 प्र√घस् > प्रघास- २वदल°
 *प्रघयोपे° काश १६, ३५
 *प्रच- नक्ष°, निश्व°, विच°
 प्रचण्ड- अति°
 प्र√चद् > *चरम- अति°, पवस्था°
 युग्पद्°, वशावगा°, प्रचणीय-
 १अ°, प्रचार- गन्त°, विपरीति°,
 चवनीय°, प्र√चल > *प्र-चाल-
 १भू°, *प्रचलाक°- ३वायस°,
 हत°
 प्र√चि (चयने) > *प्र चयन- पुण्य-
 मूल°, फल°, *प्र-चा(यन् >)
 यिका- १पुण्य°, प्रचित- उदात्त°,
 स्वारत्°
 प्र√चुद् > प्रचोदित- १अ°, वृह-
 स्तति°, प्रचुर-> प्राचुर्व- मूषण°,
 १प्रचेतस्- १अ°, कु°
 प्र√चुद् > *प्र-च्छद्- शाठी°,
 प्रच्छ-न- गन्त°, प्रच्छादित- १अ°
 प्र√च्छिद् > *प्र-च्छिन्- प्र-
 चिन्म- > *प्रच्छिन्म प्रा-न-,
 प्रच्छिन्नाप्र, प्रा- १अ°, प्रच्छेद-
 उपप्रेष्य°, प्र√च्यु > *प्र-चय-
 मान-, प्रच्याययत्- १अ°, प्रच्युत-
 स्तपर्म°, प्रच्युति- १अ°, १हत्°

a) = पैतृदाव- b) कर्तार इव। c) वेप इ इ। d) = प्रात गाल। e) = प्राण विवर्ण-।
 f) श्चुह प्र (वा ३, ३, १-९)।

प्र√जन् > प्रजन- १अ°, २संहित°,
 प्रजनन- १अ°, अपेत°, अलम्°xx,
 *प्र-जस्- १अ°, १इठ°, वहु°, तु°,
 प्रजा- १अ°, आयुत्°, वग्ना°xx,
 प्रजाकाम- दीर्घ-वाधि°, प्रजासं-
 सधान°, प्रजापति- अग्नि°,
 अनल°, दक्ष°xx, प्रजापत्य- न्य
 शब्द २, १०, २०° [१य- अना-
 लम्भ°, शक्त्°xx], प्रजापति(क)-
 ४स°, प्रजापतेर्भवन्°- प्रजापते -
 सहस्रसहस्र- रयो द्विप्री २३,
 ३, २८, प्रजाप, ता- १अ°, १शत°,
 कुमारी°, १पुध°

प्र√शा > प्रश- १अ°, अनूत°,
 २आनम°, वल्याण°xx, १प्राज्ञ-
 १अ°, महत्°, प्रशस्त-, *प्रशान्त-
 १अ°, प्रशान- १अ°, १जात°,
 प्रशायमान, ना-, *प्रशान्ति- १अ°,
 प्र√ज्वल > प्रज्वलन- उक्त°,
 १शस्त्र°, प्रज्वलित- १अ°, दौति°,
 स्वयम्°, *प्र-ज्वलन- बहि°

प्र√णम् > प्रणत- १अ°, प्रणाम-
 अग्नि°

प्र√णश् (सर्वशने) > प्रणाश- १अ°,
 १शुक्त°, सर्वपाप°, *प्र पाशग- सर्व-
 पाप°, *प्र-णाशित्- सर्वणिप्र°, *प्रणा
 शिनी- दु स्वमाय°, १पाप°, सर्वपाप°,
 *प्र नाशन- महाशेग°, प्र√णिज्
 > *प्र गेज (न) > शी- शिरन°,
 प्रणिधा > °धि- क्षाम्नाय°,
 १उत्तर°, १दक्षिण°, दक्षिणादि°,
 मन्त्र°, प्रणिहित- साधित्°, प्र-
 √णी > प्रणय- दन्°, २उच्य°,
 प्रणयत्- १अ°, प्रणयन- अग्नि°,
 व्यसंयोग°xx, प्रणोष, ता- १अ°,

१इर्म°xx
 प्र√णु > प्रणव- १अ°, बाणुद्°,
 उभयतन्°xx, प्रणवादिक्- अना-
 हायादि°, २प्रणवान्त-, प्रणुत-,
 *प्र-णुत्- १अ°, प्र√णुद् >
 *प्र-णुत्- पृवदाज्°, *प्र-णोदन-
 सर्वरिप्र°, *प्र-णोच- १अ°

१प्रत->प्रतप(त्)°°, प्र√तन्
 > प्रतव- किय°, *प्रतव-यज्ञ-
 दोष°, प्र√तप् > प्रताप- १अ°,
 प्रतापन- १पाद्°

प्रति परि°, सम्°, प्रति√कम् >
 प्रतिनाम-> *मिन्°, *प्रति-
 कर- २धर्म°, प्रतिकर्मन्->
 *प्रतिकर्म किया- १अ°

प्रति√काम् > प्रतीकाश-वर्णोच्छिद्°,
 तारापुञ्ज°, राजहल°, वराजुम्°,
 ४स°, सूर्यरश्मि°, प्रतिकूल- १अ°,
 पुष्ट°, १लक्ष्ण°, प्रति√कृ > प्रति-
 किया- सर्वोत्पात°, प्रतिकृति-
 प्रतिलोम°, १मृत्°, २मेघ°, स्त्री°,
 प्रति√कृप् > प्रतिनर्प- १अ°,
 कर्ण°, प्रति√गर्ज् > प्रतिगर्जन-
 १उच्छ्र°, प्रति√शृ (धन्वे) >
 प्रतिगर्- आहाप°, ग्रहग्रहण°, न्यूह°,
 १उत्तर°, स्तोत्र°

प्रति√शृ ग्रह > °शृहीव, ता-
 श्रुदस्त्र°, अनुस्तरणी°, °शृहीव-
 सम्बन्ध°, °शृहृत्-, °शृह- १अ°,
 °शृह- अथयन°, अथयण°,
 अनुप्रदिक्°xx, *प्रतिग्रह भोजन-
 फिन्प°, १प्रतिग्रहण- अथापन°,
 आशिष्°, २कला°, १गव°, *प्रति-
 ग्रहण मन्त्र- ४स°, *प्रति ग्रह-
 २कला°, प्रतिग्रहक-, *ग्रह- १अ°,

*प्रति√शृ > प्रतिश- १वाल्°
 प्रति√चद् > प्रविचार- १अ°,
 १चार°, प्रति√च्छद्, न् >
 *प्रति-च्छद्-नम°, प्रति√च्छिद्
 > °च्छिन्न-> *प्रतिच्छिद्रा (न-
 श्)प्र- १अ°; प्रति√ज्ञा >
 प्रतिज्ञा- ४स°, प्रतिज्ञात्- १अ°,
 प्रति√दा > प्रतिदान- प्रति-
 निधि°, *प्र ति > शी-च'- १अ°

प्रति√धा > प्रतिहित- रत्न°,
 प्रति√धे (पान) > प्रतिधान°-
 स्तन°, प्रति√धृप् > °धृष्य,
 ध्या- १अ°, प्रतिनि√धा >
 °धान- वक्षीकाया°, °धि- १अ°,
 तद्°, सर्व°, सर्वस्व°, प्रति√पद् >
 °पवि- १अ°, निर्गत°, धारद्°,
 स्वरसंद्°, *पद्- २श्राव्य°,
 १श्रीष्ण°xx, *प्रतिपत् (क, का)-
 ऋणमन्वाधान°, २श्राव्यभाग°,
 गायत्री°, १ध्वज°, °पक्ष, चा-
 १उत्त°, वाग्°, १२९°, *पक्षरश्मि-
 १अ°, *प्रति पादन- छद्°, तुप°,
 *प्रतिपा(दक) > दिका- कपिच्छि°

प्रतिपद् > प्रतिपदिक- १धातु°,
 सर्व°, प्राविपदिक व- कृदन्त°,
 प्राविपदिकान्त- निर्माक°, प्रति-
 पदोक्त- १लखण°, प्रति√पृ पृ
 > *प्रति पूरण- १धेज°, प्रति
 √प्रच्छ् > प्रतिप्रश्न- प्रश्न°,
 *प्रति प्रति- ति या २३,
 १०°, *प्रति प्रयोजन- परिष्ठा°
 प्रतिप्र√स्था > °स्थाव- धधर्षु°,
 प्रस्तोत्°, प्रदान°, *प्रति प√हा
 (लागे), प्रति प्रजादिव्यामि
 वीथी १८, ४५ . १२

a) मश २ १०, १९ > यति द । b) पृ १६९१ 'त-अ' > यति. द । c) पृ १६६७ 'उउअ' >
 यति द । d) पृ १६६८ प्रतिकर्मिन् > यति द । e) गल उप क प्र. उस । f) वैप १ द ।
 ह) पृ १६७२ प्रति√धा स्वपास्य सनिधेसो नेट । i) पृ १६६८ सत्य. प्रवि > प्रविप्रति नेटम् ।

*प्रति प्रे(प्र/ई)क्ष् > *प्रे(प्र-ई)क्ष्-
प्रेक्ष्, प्रति/वच् > प्रति
वदा- १२५°, प्रतिवन्द- १२५°,
प्रति/वुच् > प्रति, तीवो-^२-
१२५°, सवेधन°

प्रति/मध्, प्रतिभक्षय हिथी
८, ८, १९, प्रति/मा > प्रति
भा- १३°, *प्रति/मुञ् >
प्रति मुक्त- १३°, प्रति/भू >
प्रतिभू- स्वाभिन्°°, *प्रति भाव-
१३°, चोदना°, प्रति/मन्धि >
*मन्त्रण- कश्चयन°°, सप्तलदी-
तरणाभिर्द्वेषामप्य°, प्रति/मा
> *मा- वुरण्डे 'न्दु', जनतु°,
१६५°, देवता°, नक्षत्र°, सवत्सर°,
सहस्रसकलर°, प्रति/रीमान- तुला
मान°, १प्रतिमुख^२-, २प्रति-
मुख^२- २५५°, प्रति/मुच् >
*मुत्- ह्मन्°, *प्रति नोक-१२५°,
*मोचन- मणि°, ह्मन्°, *प्रति
/मुञ् > *मुञ्- १३°

प्रति/यञ् > *प्रती (ति-ड) उपा-
दिष्°, दिहाम्, प्रति/यत् >
प्रतियान- न धन°, प्रति/युञ्
> *प्रति-युञ्- ह्मन्° *३प्रति-
रथ^२- १३°, प्रति/यच् >
प्रतिरुद- १३°, प्रतिरूप- १३°,
मणिभिन्°, १३°मोचन°*x, *प्रति
रुपिकं- कृष्याभिन्°, प्रतिरूप
(-क)- उपपर्वदि २°, तदुत्पि°,
पादिशिक्ष°, प्रतिरोटक- पा^२, प्रति
/रुभ्, रुभ् > *प्रति रम्भ-
मागधय°, *प्रति-राम- मन्त्र°
प्रतिराम- अनुत्तम°, नात्न°, प्रति

लाम्य- १३°, /प्रतिलोमि >
*प्रति लोमयत्- १३°, प्रति-
/वच् > *वचन- अमृया°, शृष्ट°,
*वाचय- सशयोत्थापन°, प्रयुक्त-
१२५°, प्रति/वह् > प्रत्युद
[२५६]- मु°, प्रतिघात- १३°,
प्रति/वाच् > *प्रतिवाश्यमान-
१३°, प्रति/विच् > *प्रति विद्-
१३°, प्रतिवि/घा > *वान-
शब्दा°, प्रतिवि/भञ् > *भञ्ज्य
१३°, *प्रतिवेशाम्^२ बोपि १, १२ २
प्रति/शुप् > *शुक्- > *ष्ठाप्र,
शा- १३°, प्रति/श्ट् श् >
*प्रति शीर्ष- > *शां (शं श)प्र-
*प्रति शृण्व- १३°, प्रति/श्री
> प्रतिश्रय- दे३५६°
प्रति/पिच् > *पिक्- *पेक्- >
*प्रतिपयन्- १३°, *पेचन- अफि-
श्रयण°, प्रति/पिघ > *पिद्-
१३°, १अनाद्य°°, तदु°*x, *पिदत्व-
प्राप्त°, *प्रतिपिद्वा(द आ) चार-
अनादी°°, *पेच-१३°, अक्षयिर्त्तु°,
अग्निहोम°, अलन्त°, अ-यादि°*x,
*प्रति-पयिन्- १अपर्व°, प्रति
/पिच् > *प्रति देवण-उदीनोन्°,
*प्रति प्(<स)/कु > प्रतिप्
कृत- १३°, *प्रति/प्लु(<रक्ष्)
> प्रति प्लुत्- १३°, *प्रति/ए
(<स्त)भ् > *हृष्प- १३°
प्रति/प्टा प्रतिपिष्ठति कौए ३, २, ६,
*प्रति प्टा^२- २५५°, प्रतिष्ठा- १३°,
अचल° आगचार°*x, प्रतिष्ठाकाश-
मन्त्रार्थसंज्ञान°, दीक्ष्याधि°, प्रति
ष्ठान- १२°, सु°, *प्रति छापयिन्-

स्वरसत्कार°, प्रतिष्ठापन- अदि°,
मणिष्ठा°, प्रतिष्ठाप्य १३°, प्रतिष्ठिप-
१३°, १चुवुक°, दि°, सु°, *प्रति-
स/गम् > *गम- अन्वोन्°,
प्रति-सूर्य- इ-बभसुर्°, *प्रति-
/रखल् > प्रति-रखलित- १३°
*प्रति-स्तुति^२- *ति^२ जैथौरा १२८,
प्रति/हृन् > प्रतिघात-विरिमत°,
धदा°, *प्रति-घातक- १३°,
*प्रति घातिन्- अष्टष्ट°, प्रतिहत-
१३°, प्रतिहत- प्रक्षिष्ट°
प्रति/हृ > प्रतिहरण- कृत्या°,
प्रतिहृन्- अच्युत्°, प्ररुत्तु°,
अक्षर°, प्रतिहृन्- अक्षरत्, १प्रति,
तीक्ष्ण- १३°, अन्तर्°, उप°,
१एक°, द्वि°, -याप्य°, प्रस्ताव°, प्रति
हारिक- स्तेन°, प्रतिहृ (उ>)
ता- १३°, प्रति/हृस् > *प्रति
हास- दीक्षा°, हृत्स्°, प्रती (त-
/इ) > *प्रति वत्-, प्रतीत-
१३°, प्रत्यय- १३°, १अक्ष°,
अच्युत्°, अनुदात्त°*x, प्र यथप्रदण-
अर्थवद्प्रदण°, *प्रत्यय समास-
अनेक°, प्रत्ययस्य- १३°, प्रत्यया
धं- प्रधान°, *प्रत्या(ति सा)यन-
> *ना (न अ) -त- इत्येवशादि°,
एवमादि°, प्रतीक- १३५७°, फल°,
रेष्य°*x, *प्रतीक अक्षरस्य रूपि
देवत च्छ-दस्- सूक्त°, प्रतीक-
(-क)- प्रत्यय°
प्रती(ति/ई)क्ष् > *प्रती(ति ई)
क्ष^२- १३°, *प्रती(ति-ई)शक-
स्य स्वत्°, *प्रती (ति ई) क्षम्
१३°, प्र/तुद > प्रतुद->

a) नाग पत् प्र । b) १९०९ यनि तथ्यादीकेत द । c) प्राय । d) वत् । e) चरती-
१५५६ द्भ् प्र (पा ४, १, ८) । f) १९०८ पाप > यनि द । g) चाप्री पाठ । h) घोष ५ २५८२ c
द । i) पाठ ई प्रतिष्ठापनी इति सोधा (वु रापि ३, १, १ प्रतिष्ठिष्ठा मुया इति पाठे [१९०४ d नदम्]) ।
j) ३५ अदि द्भ् । k) अद्य । l) *ति इति पाठ ई यनि घोष (द्भ् अरुदी टि) ।

वनिष्क^२, *प्र-वेद- इणु^०,
 २^०, वृवि^०, प्र√तुइ > प्रतुवि-
 १३^०, प्रस- प्र√दा (परि.)
 इ, प्रत्यक्ष- १३^०, १३१^०,
 *प्रयक्ष हेतु- धुति^०, २प्रत्यङ्ग-
 १३३^०, प्रत्य(ति/अ)च्, ङ्च्
 > प्रत्यच्, ङ्च्- उदक्^०, १दक्षिण^०,
 दक्षिण^०, सु^०, प्रवोधी- दक्षिण^०,
 प्रत्यक्षधीव- -वम् माथी १, २, ३,
 ७^०, प्रत्यङ्ग- प्राङ्ग^०

प्रत्य(ति-अ)न्तर- आवाण^०
 प्रत्यभि/घु > *प्रत्य- १३^०, उपस्त-
 रण^०, प्रत्यभि/मृश > *मर्शन-
 मन्^०, प्रत्यभि/यद् > *वाद-
 प्रना-त^०, *प्रत्यभि वादन- अग्नि-
 वादन^०, १प्रत्यर्थ- १३^०

प्रत्य(ति-अ)धिपुर^०-
 प्रत्य(ति अ)ध √ तिञ् > प्रायव-
 नेन- अवनेन^०, प्रत्यच/मृञ्
 > *प्रत्यच-मृष्ट- १३^०, *प्रत्य
 (ति-अ)ध √ मृश > प्रायव-
 मृशम्- १३^०, प्रत्यध/कह >
 *कह- १३^०, कड^०, *रोह- पद^०,
 पयां^०, १रोह^०, स्तोत्र^०, *रोहण-
 हम्-त^०, *रोहिद्- १३^०

प्रत्यच/सो > *सान- गति^०,
 १प्रोथ^०, प्रत्यच/ह > *प्रत्यच
 हार- १३^०, *प्र पच ह्व- ईपत्^०
 प्रत्यवे(व/इ) > प्रत्यवा(व-अ)^०
 [१- १३^०, अन्वि^०, अर्हण^०xx]
 प्रत्य(ति/अ)स् > *सन-उत्तुइ^०,
 महण^०, २पुरण^०, द्विरण्यवत्क^०
 प्रत्या/कम् > *प्रत्या प्रमण-
 आणमण^०, प्रत्या/रया > *प्रत्या

व्यादिद्-, *नी- १३^०, *प्रत्या
 (ति-अ)दि- १३^०, प्रत्या √ पद्
 > *पत्ति- प्रकृति^०, प्रत्या √ स्ना
 > *स्नात-> *उपार्थित- १३^०,
 प्रत्याप्राप- १३^०, अभिहोत्र^०, अ-
 न्य^०, १०१८^०, तर्व^०, प्रत्या √ रम्म्
 > १प्रवारम्म्- उम् ७, ११^०

प्रत्या/कह > *प्रत्या-रोह- १३^०
 प्रत्या/वृत् > *प्राया-वृत्ति- १३^०
 प्रत्या/शु > *धारित- आभा-
 वित^०, धृत- अश्रुत^०, प्रजाता^०
 *प्रत्या √ सञ्ज > *सङ्ग- १दक्षिण^०
 प्रत्या √ सद् > *प्रत्यवत्ति-
 यथा तर^०, १यथार्थ^०

प्रत्या/स्र > *स्र- नष्ट^०
 प्रत्या/ह > *प्रायाहस्ती- १३^०,
 प्रायाहार- प्राणायाम^०, १यम^०
 प्रत्युत्था(द्/स्था) > प्रत्युत्थान->
 *प्रत्युत्थान(न-अ)निवादन- इद-
 संप्रवेशयामाषा^०

प्रत्युप/छे > *ह्व- निगद^०
 प्रत्युपा(प/था)स्, प्रत्युपात्त्व
 माथी २, ३, २, १^०, प्रत्युपास्त्व
 द्विथी ८, १, ५८^०, *प्रत्यु(ति-अ)
 पस्- अति^०, प्रत्यु(ति/अ) >
 प्रत्युत्- १३^०, प्रत्ये(त्वा/इ),
 प्रति(प्रे)त्, प्रति कावन्तु^० माथ
 १ १३, ८, प्रत्येनत्- १कुवार^०

प्रथम मा- १३^०, अति^०, अतिष्ठ^०,
 आगी^०xx, प्रथमवज- इष्ट^०,
 इष्टि^०, *प्रथम वाम- १सार्ध^०,
 प्रथमसोम- इष्ट^०, प्रथमस्त्व-
 ऊतोम^०, *प्रथमा (म अ)तिपेक-
 रात्^०, *प्रथमा-समानाधिकरण-

१३^०, *प्रथमस्य^० कीद् ३८, ९
 प्रधा- √ वृध् (परि) द.
 प्रदक्षिण- १३^०, अग्नि^०, १९८^०,
 दक्षिणादि^०, प्र√दह > *हन-
 २हरण^०, *प्र दाह- १३^०, परि-
 मार्जन^०, *प्र दाहन- भस्मपति-
 मार्जन^०, प्रवक्षत्- १३^०, प्र√दा
 > प्रज, जा- १३^०, *प्र द-अमन^०,
 प्रत्यन्तिकारण^०, कन्या^०xx, *प्रद-
 दि- १३^०, सु^०, प्रदातु- १३^०,
 अन्न^०, उपानह^०, प्रदान- १३^०,
 अग्नि^०, अतुल्यन^०xx, प्रदाप १३^०,
 *प्र-दायक- प्रदादेया^०, *प्र-दापिद्-
 १३^०, विरजतोय^०, *प्रदापिनी-
 १कमन्^०, प्र√दिश > प्रदिष्ट-
 अविज्ञान^०, आदि^०, प्रदेश- १३^०,
 अन्त^०, आवाण^०, १उभय^०,
 कर्त्^०xx, प्रादेशिक- १३^०, प्रदे-
 तिनी- अस्तुत्^०, प्रादेश- अयार्थ^०,
 अरति^०, अर्थ^०xx

प्र√दिह > प्रदिग्ध- गधुत्^०
 सा^०, महीमस्त^०, *प्र-देहन-
 वन्धन^०, प्र√दीप् > प्रदीप-
 मध^०, धृत्^०, धृत्^०, *प्रदीपा
 (प अ)त्त्व- दन्वनादि^०, प्र√ट, इ
 > *प्र दीर्घ- शवम्, प्र√हश् >
 १प्रदीर्घ- ईह^०, पत्^०, महायत्न^०,
 विमहादि^० इ^०, *प्रदीर्घाका- अतोति-
 होम^०, प्रदीर्घित- किमुत्^०
 १प्रदीप- अत्, प्र√धुत् > *प्र-धो-
 तित- अर्षित^० न^०, प्रधुम्->
 *प्रधुम्भा (म अ) गतन्-
 (> *नीय- पा) पाग ४, ३, ८८^०

प्र√धा > प्रधान- १३^०, १३३^०,

a) १ १६९१ इति ० > यति. इ । b) पाणि १ १६९३ इ । c) १ १६९६ प्रत्यर्थ-पुत्- >
 यति इ । d) १ १६९७ था (क-अ) > यति इ । e) वान स्वत शोध । f) पाणि वैप २, ३३ प्रत्युप
 तिष्ठते वाश ४ १, ३, १४ इ इ । g) पाणि यथायव १ ७३४ इ, ७३५ इ इ । h) प्रथम स्य इति शोध;
 (इ शी १, १३, ११) । i) इ पाणि । *आभिय इति पाणि ।

अनुप्राहिकः, अन्तरालःxx, प्राधा
न्य- वर्मन्, १वात्, क्रियाः, तद्, १
पूर्व, उद्ध, सोम, २प्रधानकाल-
१अ, प्रधानत्व- ३आन्ध, १
क्रियाःxx, प्रधानदेवता-अर्वाशिष्टेष्टि

प्र√धाव् (कुम्भी) > १प्र धावन-
अपामार्जन, १प्र√धुनि (<धून-)
प्र-धूनयद्- १अ, प्र√धृष् >
१प्र धृष्य- १अ, प्र√धै > १प्र
ध्या- १अ, प्र√ध्वस् > १प्र ध्व-
सिद्- उच्चरित, १प्र ध्वस्त-
व्यापित, प्र√ध्वञ् > प्रध्वञ्च-
४अ, प्र√धत् > प्रधत्- नटक-
नि १०, २प्रधन्, १अ, १मुसल,
शक्यन्, प्रधा- अच्यन्, १
दिष्नाद, १मुसल

प्र√पद् > प्रपद्- रवेद, प्रपदन-
गृहपात, प्रपन्न- १अ, अन्धयन्,
मापृच्छ, वया, २प्रपद्- आ,
तापृष्ट, १प्रपद्गे (द-उ) चिच्छ-
उर्ध्ववाहु, प्र√पा(पाने) > प्रपा-
देवशह, २वेदि, १प्र पाण-
१अ, सु, प्रपितामह- तद्,
पितामह, वि, प्र√पृ, पृ >
१प्र-परिव- कृगोरि, १प्र पवि-
सु, प्रपौत्र-> प्रपौत्रक- वीत्र

प्र√वष्, ष् > प्रवष्- दीर्घत्व,
१वासु, प्रवष्- क्रिया, १प्र-
(<प्र)वन्- केय, प्र√वृष् >
प्रवोषय > या ऋषा ८, २११,
१प्रवोष, १प्रवोष- १अ, २प्रवोष- तद्,
प्रवोषिय- वापुधान, प्र√पृह >
१प्र वृह- दधत्, दादहाह,
मवाह, २वृषान, १प्र भर्मन्-
वृष, प्र√मा > प्रमा-
११नीउम, १प्र, धीः

क्षीं नःxx, प्रमाकर- वा ३,
२, २१, प्रमाव- सु, प्र√मिद् >
१प्र-भेद- अष्टादशन्, १गौरमुष्, १
चन्द्राकोकान, दादशन्, द्वि, १प्र
भेदन- प्रह, वभस् १अ

प्र√भू > प्रभय- अर्कन्तु, धावा-
शक्यु, सजीव, कल्पःxx, प्रभाव-
आत्मन्, उत्पल, महत्, सु,
प्रभु- जगत्, महत्, प्रभुत्व-
कुम्भीशू धी, बोदना

प्र√भृ > प्रभृति- विष्णु १, ६
१३६ [०ति- १अअ, अग्निप्रणयन्,
अग्निम-धनःxx]

प्र√मध् > १प्र मयन- भग

प्र√मद् > प्रमध, चा- १अ,
१भीत, सुत, प्रमद- इन्दु,
३-२, प्रमन्- आहु, पुरोटाण,
प्रमाद- १अ, उगुष्ठा, पुनर्,
१प्र मादिन्, १प्र मादत्- १अ

प्र√मन् > १प्र मति- अदन्ध-
मन्, प्र√मा > प्रमाण- १अ,
अनुगृह्य, अन्य, अग्निःxx,
१प्रमाथी- दृष्णी, प्रमाण्य- १अ,
देव, वचन, १सिष्ट, प्रमाण
(-क)- तुष्य, दण्डायाम, १वित,
१प्रमाण व- १चडा, १प्रमाण-
(अ-आ)जर- तद्, प्रमेव-
१अ, प्रमातामह- २अ

प्र√मि मी(दित्वाभा) > प्रमापण-
उग्राना १, प्रमीठ- १अ,
चर्दरत्, २दीक्षित, वह

१प्रमी- १वात्, प्रमुस- १अहु,
अभृत्, १अराध, वशीवह,
विप्रथेन, प्रतिप्रस्थात्, १वर,
तारसत, रोन्

प्र√मुष् > १प्र मोचन- २उगो-

वन, पशु, प्र√मुद् > १प्रमो-
दिनी- इतिनाद, प्र√सृज् >
प्रसृष्ट- अ, प्र√सृद् >
प्रसृष्टि- गोन्दात्, प्र√सृप् >
१प्र सृष्य- १अ, प्र√यच्छ्,
यम् > ०च्छ- १अ, प्रयत्-
१अ, सु, सुसृष्ट १, १, प्रायत्व-
१अ, प्रयति- आदित्वानाम्

प्र√यज् > प्रयाज- १अ, उतम,
एसादशन्xx, प्रयज्यु- शीर्ष

प्र√यत् > प्रयान- इति, अन्तर्,
१आद्यःxx, प्रयस्- सु

प्र√या > प्रयाण- १अ, इन्द्र,
सृपति, स्वप्, प्रयात्, १प्र-
यावन्, १प्र-यावम् १अ

प्र√युच्छ् > १प्र-युच्छत्- १अ

प्र√युज् > प्रयुक्त- १अ, अन्तः
वह, अर्थ, गुहःxx, १प्र युक्ति-
द्वित्रिंश, प्रयुज्य, प्रयुज्यमान- १अ,
१प्रयोग- १अ, स्तुतितकर्मन्,
अधिःxx, १प्रयोग-समह- १अर्थ,
१प्रयोग(य-अ)इ- १अ, १प्रयोग्य-
जरत्, प्रयोद्ध- १अ, तः,
स्वत-२, प्रयोद्धव- स्वतन्त्र,
प्रयोजन- १अ, वत्, अन्यःxx

प्र√रद्, र् (प्र) रद्व् शंशौ १२, १०,
१०, ऋष २, ७, ८७, प्र√रिष्
> प्ररेक- १अ, ३आज्य,
४अ

प्र√रह् > प्ररोह- वृत्, भोग,
४अ, प्ररोहण- १स्वृण, प्ररोहत्-
नीलरविण, १प्र-रोहिन्- सुविदेह,
१प्र(<प्र) रोह- ४अ, १प्र√र
(=ह) > प्ररव- १वेद

प्र√रल् > प्रराल- इत्यवह, ऐतम,
धीवाहय, प्र√लिप् > प्रल-

a) २१ १ २. b) १ १०१४ यनि सव्यामस्त ३. c) ३५ मावे पम् प्र. d) १ १०१०
छ् १.१११ > यनि ३. e) १ १.२८०० १ ३ f) भय, म्पर. (क्रवि) : g) = प्र-उद- (धए-). i)

पिका- (>°क- पा), प्र√ली
 >प्रलय- भा°, स्थिति°
 *प्र√लु, लू >प्रलय-१मुञ्ज°, १वेद°,
 *प्र लवन- आयोजन°, सीतायज्ञ°,
 *प्र लून- गो°, प्र√वच् >प्रव-
 क्त- कर्म°, प्ररचन- अधिष्ठान°,
 नक्षत्र°, सूत्र°, प्रवचनी- स्त-
 सुत्या°, प्रवचनीय- कर्मन्°, *प्र-
 वाक- १भूत°, सोम°, *प्र-वाचन-
 द्वि°, १भूत°, प्रोक, चा- १व°,
 इन्द्र°, ऋषि°, एरम्°××, प्रोच्य
 १व°, प्रवण, णा- अति°, १उत्तर°,
 उद्गृह्णत्°, उद्गृह्ण, उदीचीन°××
 प्र√वद् > *प्र-वद्- प्रथम°, *प्र-
 वद्(त् >)वी- १व°, *प्र-वदित्यु-
 वात्°, प्रवाद्- १व°, इक्षर°, अन्त°,
 अन्तरिक्ष°××, *प्र-वादन- काठ°,
 प्रवादिन्- आप्य°
 प्र√वप् > प्रवपण, न- आयोजन°,
 सीतायज्ञ°, प्रवयस्- पक्ष°
 प्र√वल् > प्रवल्ह- मनु°, सदासर°,
 सदासरण°, प्र√वस् > प्रवसत्-
 १व°, १प्रवास- स्वकिसिप°°, *प्र-
 वास विधि- अनुग्रहिक°, प्रवास-
 गमन- ऋतुसगमन°, प्रोषित-
 १व°, प्रोषिताग्न- सोम्यन्ती°,
 प्रोषिवस्- १व°
 प्र√वद् > *प्र-वहण- रथ°,
 सोम°, *प्र-वाह- गत्रा°, सप्तर्षि°,
 *प्र वाह- १अव°
 प्र√वा > प्रवात- संवत्सर°, प्रवा-
 नि (<पी)- निस्°, प्रवाल-
 १दधि°, दूर्वा°, मण्डि°, हिरण्य°
 प्र√विद्(ज्ञाने) > *प्र-वेदन-१काम°,
 *प्र वेदित(>)ता- १व°

प्र√विद्, प्रविश जेठ १, ८-१०,
 प्रविश्य १व°, प्रविष्ट- तुषाघनि°,
 प्रवेश- अवार°, अग्नि°, अनि-
 दित°××, प्रवेशन- २एतधन°,
 गृह°, गृहशेष्ट°××, *प्र-वेशिन्-
 परकाय°, *प्र-वेश्य- दस्यु°
 *प्र वि√शू(हिंसावाम्) > *शीर्ष-
 > *शीर्षा(र्षे-अ)प्र- १व°, प्र
 √वी, प्रविहि रूप ८, ४६१, प्रवी
 ता- १व°, प्रवीण-> *प्रावीण्य-
 उरसन°, प्र√वृ(वरणे) > १प्रवर-
 अर्षु°, अवमान°, आचार्य°××,
 प्रवराध्याय- अनुग्रहिक°, प्र√वृ
 (आल्लादेने) > प्रावरण- २केत°,
 *प्रा(<प्र)वृत्- १व°, प्रावृत्-
 १व°, अवकर्म°, आकर्षी°, वृष्ट°,
 १वर्ष°, सवर्षी°, प्र√वृच् > *प्र-
 वृत्न- कु°, प्र√वृत्, वृ >
 प्रवस्ये- १व°, ४स°, सवृत्°, सुत्या°,
 प्रवस्योत्सादन- कवल°, प्रवृत्तन-
 उला°, प्र√पृत् > प्रवृत्क-
 वेदवेदा...स्था°, शाखाभेद°, प्र-
 र्शन- १धृत्°, महायन्त्र°, १हविषनि°,
 प्रवर्तित, ता- स्नेहयोग°, *प्र-वर्तिन्-
 वृत्तिवेद°, प्रवृत्त, चा- १व°, तद्°,
 दीर्घ°××, प्रवृत्ति- १व°, अहीनभूत°,
 १सप्त°××, प्र√वृच् > प्रवृत्-
 वेद°, महर्षि°, प्र√वृ, प्रवृच् >
 *प्र प्रवृत्त- इष्य°, *प्र-वृत्क-
 अक्षर°, भरद्वाज°, प्र√वृप् >
 प्रावर्तिन्- विंनि शोध ७, ५,
 २१°, प्र√वे > *प्र वाण- १ले-
 हित°, *प्रवेद- १व°
 प्र√व्यप् > प्रव्याप- इत्तु°, १धन्वा°
 प्र√वृच् > प्रवृत्त, ता- अनाथ°,

अविधि°, आर्यविधि°××, *प्र-व्या-
 ल्य क°, *प्र वाजि(त् >)नी- द्वि°
 प्र√शस् > *सा- अक्षरवि°, अर्थज्ञ°,
 अक्षरम्°××, *स्व, ता- १व°, कवि°,
 २व°, १लक्ष्ण°, वात्°, *स्व-
 नयस्य पा ५, ३, ६०°
 प्र√शम् > *प्र-शान- १हृत्पा°,
 पाप°, *प्र शमनी- सर्वरोग°,
 प्रशान्त- > *प्रशान्त-स्वर-,
 *प्रशाम्- १व°
 प्र√शस् > प्रशास्- प्रसोत्°,
 अक्षर°, होत्°, *प्र शिष्ट- इन्द्र°,
 ऋषि°, प्र√शुच्(दीप्ति) > *प्र-
 शोचन- उच्छोषण°, प्र√शु, शू
 (हिंसावाम्) > *प्र शीर्ष- स्वयम्°,
 प्रशीर्षा(र्षे-अ)प्र- १व°, २प्रदन-
 तित्त°, शीर्ष°, प्र√श्र्य > *प्र-
 श्रय- पा ६, ४, २९, प्र√श्रि >
 प्रश्रित- नियत°, *प्र√श्रु(विशरणे)
 > *श्रु-अवयव- चत्तु क्रमा
 १, ४५
 प्र√श्लिप् > प्रश्लिष्ट- २जात्य°,
 प्रश्लेष- स्थान°, प्रश्लिष्ट- अग्नि-
 निहित°, प्रष्टि- दक्षिण°
 प्रसं√ख्या > *प्रसं ख्या- १व°,
 अर्थ°, प्र√सज्, वृ > प्रसक-
 धनरुदि°, इक्षर- १व°, १अन-
 यव°, १अनिष्ट°××, प्रासङ्गिक-,
 *प्रासङ्ग्य- १प्र°, प्र√सद् >
 *प्र सप्त- दीर्घ°, प्रसत्त- -वा-
 अर्ष ६३, १, ८° [*व- १प्र°,
 विमल°, गु°], प्रसाद- १व°, इन्द्र°,
 गुह°××, प्रसादन- गुह°, १देव°,
 प्रसाद- गोपुर°, चक्र°, वृष°,
 नौ°, यन्त्र°, स्तम्भ°, *प्रासाद-

a) इ १५२५ का->वलि द । b) वै २, २ खे द । c) न्यु इ ११९ गु द । d) पागे.
 इ २२-८ d द । e) वनि वल्ल शोध । f) नाप (उभय- वा इव- वा) । g) वै १ द । h) पाठ- ।
 -ने इति शोध (इ. संस्कृतं टि) ।

वेरमन्- प्रासाद^०, प्रसं०धा >
 ०मान- ओमान^०, प्रसव-
 ००वानाम् शायी ४, १०, ११^०
 [०ब- १३०, अमोत्सर्व^०, अमुवाज^०,
 अन्^०xx], *प्रसव-मरण- तद्^०
 प्र√सह > प्रसह्यत्स्कर- गरद^०
 प्र√साध् > *प्रसाधक- क्षिप्र-
 कर्मन्^०, चरन्मन्^०, *प्रसाधकी-
 उपरन्मन्^०, चरन्मन्^०, प्रसाधन-
 उच्छिष्टारान^०, रक्षे^०, प्र√सिच्
 > प्रसेक- १हंसमुख^०, प्रसेचन-
 अपतन्^०, १हंसमुख^०, प्र√सिच्
 > प्रसिद्ध, दा- १अ^०, काटन्^०,
 *प्रसिद्धि- १अ^०, उत्तरपद^०,
 उपपार्जन^०, व्याकरण^०, प्र√सु
 (अभिव्ये) > प्रसुत- निम्^०
 प्र√सु(वधा) > *प्रसव-
 क्षिप्र^०, प्रसू- अवात्^०, १अ^०,
 सु^०स्त्री^०, प्रसूत, पा- १अ^०,
 साचार्य^०, उडिन्^०, गुरु^०, ज्येष्ठ-
 पुत्र^०xx, प्रसूति- अन्वेषत्^०, प्रसून्
 (वधा) - अनामार्ग^०, १उदुम्बर^०,
 ३वन्^०, १अ^०, सुनल^०
 प्र√सु > प्रसार- वाञ्^०, प्रसारण-
 अन्वेषत्^०, अन्वेषत्^०, अन्वेषत्^०,
 १पाद^०, प्रसारणी- १अ^०, प्रसादि-
 ता- १अ^०, प्रसाविमाण- अम्
 कैष्ट २, २० १२, प्रसव- १अ^०,
 अन्वेषत्^०, प्राचीन^०, सुष्टि^०, *प्रसू-
 ता(त अ) सुगुणी- अङ्गु^०
 प्र√सुञ् > प्रसर्ग- १अ^०, प्र√सुप्
 > प्रसर्वक- चमसाभ्यु^०, दोरक^०,
 प्रसूत- १अ^०, यथा^०, प्र√स्तु >
 प्रसवात्- १अ^०, अने^०, १एक^०xx,
 प्रस्ताव्य-, प्रस्तुत- १अ^०, प्रस्तोत-

अभ्यु^०, उदात्^०, अदात्^०
 प्र√स्तु, स्तु > प्रस्तार- १उज^०, दर्शि,
 वी^०, यथा^०, ४अ^०, सह^०, *प्रस्तारा-
 (र-अ) हरण- पाणिप्रधान^०,
 *प्रस्तारण- स्वम^०, प्रस्तार-
 त्रि^०, द्वि^०, *रश्मि- पुरस्तात्^०,
 महापक्षि^०, प्र√स्था > प्रस्थ-
 (> *प्रास्थीय- पा) पागवा ४,
 २, १२८^० [०स्थ- १एक^०, १उदु^०,
 कन्दु^०, करि^०xx], *प्रस्थ-क-
 (> प्रास्थकीय- पा.) पागवा ४,
 २, १२८^०, *प्रस्था(रय आ)दि-
 योपध^०, संस्कारण^०, प्रस्थान- >
 *प्रस्थान-लिङ्ग- १अ^०, *प्रस्थाव-
 साभू^०, प्रस्थित- १अ^०
 प्र√स्तु > *प्रस्तानि(त् >)नी-
 क्त^०, प्र√संत् > *प्रस्थ-
 १अ^०, प्र√सु > प्रसवण-
 उदत्^०, वृत्^०, नर्त^०xx, प्रसव-
 वलीक^०, *प्र-प्राधि(त् >)नी- क्त^०
 प्र√हन् > *प्रहत- उदात्^०, *प्र-
 हन्- १अ^०, प्र√हस > प्रहास-
 कम्^०, गायन्^०, प्र√हा (व्यागे)
 > प्रहाण- १अ^०, *प्रहाव(त् >
 २ >) ही- १अ^०, प्रहीण-
 व्याधित^०, प्रजहित- > प्राजहित-
 आहवनीय^०
 प्र√हि(गती) > २प्रहित- १देव^०,
 प्र√हु(दानात्) > प्रहुत- हुत^०,
 प्र√ह् > प्रहरण- १अ^०, अग्नि^०,
 उपधित^०, १पात्र^०, शाखा^०, सकृत्^०,
 प्रहार- २उदत्^०, अङ्गुष्ठि^०, *प्र-
 हारिन्- आवात्^०, क्षिप्र^०, सुप्र^०xx,
 १मद्व- उदात्^०, वात^०, *प्र√ह्वाद्
 > प्रहार- १अ^०, प्र√ह्वाद् >

प्रह्लाद- २अ^०, प्र√ह्वे > *प्र-
 ह्वत्- उदात्^०, √प्रा आ^०, *प्र-
 १अ^०, पृथिवी^०, *प्रा- अन्तरित^०,
 चर्षणि^०, रोदसी^०, प्राप्रप्र^०,
 प्राहृक्य- > ०काष्ट- परोक्ष^०,
 प्रव्यस^०
 प्रा(प्र√अ)च्, उच् > प्राच, न्-
 उदत्^०, दक्षिणा^०, सु^०, सौवीर^०,
 प्राची- तद्^०, दक्षिणा^०, प्राचीन-
 उदीचीन^०, प्राचीनयोग- > ०योग-
 आमात्ति^०, १सावधि^०, प्राचीना
 वीत- यज्ञोपवीत^०, प्राचार्य-
 साचार्य^०, प्रा(प्र√अ)ञ्, प्राजति
 काधौ ७, ९, १२^०, *प्राजया
 (> वा/कृ पा) पाग २, ४, ७४^०
 प्राञ्जलि- न्यस्तासुध^०, प्रा(१-
 √अद् >)ण > प्राण- १अ^०
 प्राण- १अ^०, अल्प^०, आयत्^०, १एक^०,
 दीर्घ^०xx, *प्राण दान- पश्य^०,
 *प्राण व्याघ्रच्छन- अग्निगु न^०,
 *प्राण हिंसा- १अ^०, प्राणापतन-
 सत्तन्^०, प्राणावास- १अ^०, १यन्^०,
 ४अ^०, प्राणायामसम् १अ^०, प्राणि-
 न्- १अ^०, लि-दत्^०, सर्व^० १अ^०वर्ष^०,
 *प्राणि-प्राप्ति- १अ^०, प्राणिहिंसा-
 आहङ्कन^०, *प्रात^०- सु^०
 प्रातर्-सावम्, सु^०, प्रातरभिवाद्- मेस-
 ताभारण^०, *प्रातर-मसत्^०- नम्
 माधी २, १, ३, २, प्रातरास-
 अहत्^०, आ^०, १अ^०, सायनाज^०,
 प्रातराशिव- न विध ६८,
 ४८, प्रातरस्थान- अनुपदि^०,
 *प्रातर्-वस्तु^०- ००त हिमी १५,
 २, २१, प्रातर्हुत- ते वीथी १९,
 २ १०, प्रात.सवन- अनिरक्त^०.

a) सत्य -वानाम् > गनि द. । b) = पुष्प-, पत्र- प्रवृ । c) वस. । d) तु पाक. पागम ।
 e) वैप २ द । f) भावे कर्त्तरि च क्त । g) २ १७४१ प्राणा > गनि द । h) पाग ४ ४०१ ८ द ।
 i) अर्था इति पाठ । j) = प्रातर्- । k) विप (वामि)-। वीषा-पुस्त- (तु वैप १) डि. द. ।

यावन्ती°, जपत्°, जगती°, जिद्दुम्°,
 प्रात स्नायिन्- ति.प°, प्रादुस् >
 प्रादुर✓भू > *भोर- भमिदि...
 भु°, प्रभरावि°, शब्द°, *वगमन-
 १उदक°, प्रादुप् ✓कृ > *कृत-
 १अ°, *प्रा(प्र-अ) धी(धि✓इ)प्
 (इच्छायाम्) > प्रा(धे(धि-ए)पण-
 पुनर्°, प्राध्व- अर्थ°, १प्रान्त-
 कृती°, १दर्भ°, दुर्वा°, प्रच्छिष°,
 ३वेद°, प्रा(प्र✓आ)प् > प्रायक-
 वन्मन्°, प्रायण- अणिमावेरुअर्थ°,
 क्षेम°, मो°, अयहार°, *प्रा(प्र-आ)
 पिन्- मर्ष°, प्रास,सा- १अ°,अभि°,
 अर्थ°xx, १प्रासकाल- १पृ०, २प्रास-
 काल-प्रासगृहवृत्त-°, *प्रास-वपस्-
 १अ°, प्रासि- १अ°,अनेक°, अनेक-
 प्रत्यक्ष°, १उभय°xx, प्राप्य १अ°,
 प्राप्य, एवा- १अ°, तार्य°, प्रेम्बु-
 वर्मनामन्°, तद्°, १सम°, हित°
 *प्रा(प्र✓अ)म् > प्रा (प्र-अ)
 मिन्- १अ°, *प्रा(प्र आ)प्रेडित-
 १अ°
 १प्राय- आश्रित्°, दृष्टि°, एवम्°,
 कला°xx, प्रायवचन- > *प्राय-
 वचना(न-अ)र्थवच-तद्°, *प्रायो
 (य-उ) श्रित°- तस्कर°, *प्रायो
 (य-उ)पवेदान- अर्थ°
 प्रायस्- > प्रायश्चित्त- १अ°,
 अदृत्°, अज्ञात°, अतिवध°xx,
 प्रायश्चित्त- शान्तिक°, प्राय-
 श्चित्त- अन्धर°, अनाज्ञात°, उप-
 चारमत्°xx, प्रायश्चित्त(क)-
 १अ°, *प्रायु- १अ°, प्रा✓रम्.
 म् > *प्रा रम्- यज्ञि°
 प्रा(प्र✓अ)र्षे > अर्थ- द्रविणोदादि°

२वदण°, १विधि°, अर्थ- इन्°
 प्रा (प्र ✓अ)प् > *प्रावी-
 तु°, प्रा,प्र✓अ)श् (भोजने) >
 प्राश- वृत्त°, प्राशन- अक्ष°, अम-
 स्वाभो...य°, अमस्वामो ए°,
 अमेष°xx, *प्राशनी- १रत्°
 २प्राशित्र- १इडा°, प्रजोना°,
 प्राशित्रदरण- पविन्°, प्राशनव्-
 प्राश्य १अ°, प्राश्य- चतुर°, प्राशु-
 यथा°, प्रा (प्र✓अ)स् (क्षेपणे)
 > *प्रा (प्र-अ)स- १अम्भा°,
 प्रापन- अहार°, २काप°, १वृष्णा-
 चिन°xx, प्रास्- १अ°
 प्रास्थकीय-, *स्थीय- प्र✓स्था
 (परि) द्र, प्रियङ्गु- एप°,
 मदयन्ती°, मन शिला°, ३यन्°,
 १वेद्यु°, भीदि°
 ✓प्री आ°, प्रति°, एम्°, प्रिय,वा- १अ°,
 १अतिथि°, अरण्यवास°, आचार्य°xx,
 प्रियकरण- वा ३, २, १६, प्रियतम-
 १मनन्°, प्रियमेव- मेध्यातिथि°,
 प्रिय-भविष्णु-, *भायुक- वा ३,
 २, ५०, *प्रिय वृक्ष- कौव°,
 प्रियमुख- खयो वा ८, १, १३,
 *प्रिय सुनु- गिरिरा...र°, प्रिया
 दि- पूरणी°, *प्रि, प्री- १कप°,
 १वत्°, १वत्°, विद्व°, प्रीत,ता-
 १वेत्°, १वर्त्य°, सु°, प्रीति- अमित्र°,
 आत्मवर्, आशरण°xx, *प्रीत्य(ति-
 अ)भित्वाप- निम्°
 ✓पु अति°, अर्ष°, अभि°, २उद°, वि°,
 पुम्-, *पुत-, *पू- कट°, ✓मुष्
 (सन्धे), *प्रोष- प्र°
 ✓मुष् अ°, अल°, २उद°, वि°,
 *पुष्- १अम्, हृत्°, मुषित-,

*पुष्- १अम्, हृत्, दादशन°, ✓प्र
 (प्र✓इ) > १प्रायण- जगतिस्°,
 पुष्°, देशप- अर्थ°, सु°, प्रायणीय,
 या- दीपणीवा°, प्रायणीयोदय-
 नीय- ध्याहित°, समाहित°, प्रेत-
 अन्वारत्न°, द्विज°, द्विजपदश्रुति°,
 परोक्ष°, परोक्षगत°, १वरात्°, शूद्र°,
 सस्कार्य°, प्रेतक- अन्व°, मृतक°,
 *प्रेत मार्जर वाराह- प्रवृत्°
 प्रे,प्र✓ई)हृ > *प्रे,प्र✓ई)अ- दृष्टि°,
 प्रण- १अ°, सध्यादित्य°, *प्रेक्षण
 (या आ)लम्भ- क्षी°, *प्रे(प्र✓ई)
 क्षा- चतुर्थ्यर्थ°, पञ्चम्यर्थ°,
 पृष्ठवर्ष°, *प्रेषा पूर्व- १अ°, प्रेषित-
 चवदात्त°, *प्रेक्षा-
 प्रे(प्र✓ई)हृ > प्रेक्ष- प्रेक्ष-
 फलक- पदवात्°, प्रे (प्र✓ई)हृ >
 प्रेरित- १देव°, प्रकल°, अदा°
 प्रे (प्र✓इ)प् (गती) > प्रेपण-
 अग्रीष्°, प्रवातक°, प्रकसा°, व्युप-
 तोद°, शूद्र°, प्रेरित- १अ°, प्रति°,
 अपूर्व°xx, प्रेष- गण°, तस्कर°,
 १देव°, वृत्°, १पट°, राजव°, शूद्र°,
 प्रेद- १अ°, अति°, अश्रितु°, अनु-
 वाज°xx, प्रैकहृ- अतिवृ°,
 प्रैपण- व्युपतोद°, प्रे(प्र✓इ)हृ,
 प्रोक्ष् हिं २, १, ४०°, प्रोक्ष-
 ३माज्य°, पयस्°, पात्र°, श्वेदि°,
 प्रोक्षण- अभिधात°, १अम्भ°,
 ३माज्य°xx, प्रोक्षणी- ३माज्य°,
 इन्धवर्हिस्°, उपप्रेष°, पृत्°,
 पात्र°, पुरोडाहीय°, प्रोक्षणी-
 सस्कार- विपरीतद° एम्°, प्रोक्षण-
 मार्तन- सर्व°, प्रोक्षणेच्छेत्तनादि-
 अन्वालय°, प्रोक्षित, ता- १अ°,

a) हस्त. b) एष = प्रायश्चित्त. c) वेप १ द 1 d) नाप (वज्रान-विदेद-) ।
 e) कर्तारि कृत् । f) पृ १००५ ननि शट्पासकत्. द । g) पृ ४१५ सध. मयोक्षेव, तन्वप पाभे टि.
 च नेष्टम् ।

विन्, प्रदन्, सु°
 शोध-; शोध- २५°, शोधद
 दा- १३१२°, पूर्व°, प्राचीन°,
 १५५५०°, शोधपद- माघ°,
 २५५५°, शोध- १५५५°
 इष्ट°, नि°, निम्, विरदुत°, प्रक-
 दासा- वहीत्°, नेष्ट- >
 प्लाक्षि->प्राक्षायण- प्लाक्षि°
 लीहन्- क्लोमन्°, √प्लु अति°,
 अतुपरि°, ५५°, अति°, आ°,
 २३५°, ३५°, निम्, परि°, पर्या°,
 ३°, वि°, सप्, समन्, प्लव-
 उतरण°, उदन्°, उभयतोरुत्°, क्ल-
 विद्°, १५५°xx, °प्लवन-, °प्लव-
 मान-, प्लावन- १५५°, प्लाव-
 यत्-, प्लावयिष्या, °प्लारिव-,
 °प्लाव्य, °प्लु-, प्लुव, ता- १५°,
 अन्त°, आदि°, उक्°xx, प्लुतादि-
 १५°, १प्लुति->प्लुत्वादि-
 यन्त्रा°, °प्लुय, √प्लुप् >
 °प्लुष्ट- अति°, °प्ले, प्ल [= प्र]
 √इ > प्ला, प्ल-प्र)य- स्वाधि°
 °प्लरस- १५°, √प्ला > प्लाति°-,
 प्लान->प्लावीय- इ(<मा),
 °प्लनी- विथ°

फ

फ- उर्वा°, १५°, ५°, √फण् आ°,
 उर्वा°, फन- रोमादि°, °फण्फण्-,
 फाणि- १५५°, फाष्ट- २५५°,
 फर्षत्तत्, १५५५°, मौत°,
 °फाष्ट(ष्ट म)फ- श्ले. कौट
 ३०.१
 √फण् > फल- १५°, अष्ट°, अष्ट

५५°xx, °फल-प्रवतन- उदपाना-
 रक्षण°, फलयुक्त- १५°, °फल-
 निनाम- यथा°, फलाफल->
 °फलिका-पावा, पावाय २, १, ६०°,
 फला(ल आ)दिन्-°, फलित- नि-
 द्वाप्रीय°, फलिन्- १५°, फलोचम-
 सर्वाधि°, °फलो (ल-उ) द्य-
 २५५°, °फालन-२५५°, फलक-
 ३५५°, अधिपत्रण°, अधिपत्रण-
 चर्मन्°xx, फली > फलो √ह
 >°करण- १पिष्टेण°, °कुट-
 -नेभ्य हिप्रौ ३ ८, ५५ [°व- १५°,
 निष्, सप्त°, सु°], √फ(०५ >
 ल् > १फलयुन-> १फलयुनी-
 कृत्तिका°, पूर्वा°, २फालयुन-माय°
 फाल- १३१२°, सु°, फालकृष्ट-
 १५°, °फाल-मणि- मन्त्रोक्त°
 √फुल् २३५°, प्रोद्, फुल्ल-
 √फुल् ३°, फेन- १५°, गृत्, ४५°, सु°, °फेन(न-म)फेनाव-,
 फेनिल- १५°

व

व- उर्वा°, ग°, ३५५- आद्य-
 निक°, कलविद्°, १काक°, निलु-
 दाह°, २३५°, हंस°, वडर-
 दान्दण°, वण्ड- १काण°, कृत्, ३,
 विष्णुनमनसुष्, १५५५-वृत्त°,
 १५५°, १५५°, सोम°, वद्री-
 १५५५, कन्दुक°, २५५°, विरोप°,
 °वद्री कल- अज्ञान°, २५५५->
 वादरायण- अठमर्षण°, यद्-
 √वष्, वष् अणु°, कश्चित्, अणु°,
 आ°, २३५°, उर्वा°, उर्वाणि°, उर्वा-

सप्, वि°, निर्, परि°, प्र°, प्री°,
 वि°, विनि°, २५°, वद, दा- १५°,
 अशि°, वद्व°xx, १वधिर- १५°,
 १५५५°, १जल°xx, वधन्-
 °वध, वधमान-, १५५°-
 १५°, २५५°, अणुष्°xx, °वध-
 विसर्ग- पारावच्छन्त°, प्रत°,
 वन्धन- ऊर्वा°, गण°, तद्°xx,
 °वन्धनिक- उत्सृष्ट°, वापुषिक°,
 °वन्धिन्- १मात्स्व°, सुष्टि°, १५५°-
 १५°, अशावाद°, अनाज्ञात°xx,
 वान्धव- १५°, अशावाद°, अर्त्, ३,
 अर्थ°xx, °वान्धवी- राजन्°,
 °वन्धव-°, वी- राजन्°, °वन्धु-
 कृत्- १५°, १५५५- पूर्वा°,
 वन्ध- १५°, वाष्, °वन्ध-
 °वाष्- १५°, वधक-
 १५५५°, १शाक- २५५°,
 निम्ब°, विभीदक°, °वधप्र-
 पात ३, १०५, °वधयोग, व-
 (>वाष्, व- >) °वीगायव-,
 °वायव-] वा यत्.) पाण ४, १, १०५,
 १००, °२५५°- (> वान्ध-)
 वन्धक- २३५°, वन्धकी- १५५°
 °वन्धकि- आरमायन°, आरट्
 वायनि°, आरह्नायनि°, °वन्ध-
 नि- आरह्नायनि°, वन्धुजीव-
 > °वक- ज्वलन°
 वन्ध्या- वन्धा- (परि.) इ.
 १५५- अरह°, १५५°, वधन्-
 वापथी°, २५५- विक्ति°,
 वैमिनि°, वाधव- अणु°, उणु°,
 वाधव- जाननि°, वैमिनि°,
 २५५, वाद्वि°, °२५५- हंस°

a) १ १०५५ वनि सख्यासंकेत इ । b) वैष १ इ । c) पाण्डुरो निर्देशः । d) वत्, उप.
 = १५५. १ २५०१ वृत् । e) वनि स्थल श्लोष । f) १ १०५५ (ल-म) > वनि इ । g) अन् ।
 ह>५ इ । h) १ १०५५ वनि मध्यासंकेत इ । i) = वन्ध्या-। तत् प्र भेदः इ । j) १ २१२० इ इ ।
 k) १ २५०१ इ । l) अर्थ श्ल. वः । m) अथ णि > ५ इ । n) = वज्रलभेदः ।

वा.वा.कैर- १वत्ता, घर्वर-> वायं
 रक- पा ४, २, १२७, घर्वर- ✓वृह
 (परि) द, *वाह्वीधीति^१ निघ
 ३, ३^१, १वत्- १६°, अति°,
 अगिवा०, आयु^२, उपात^३ x x,
 *वल्-पराक्रम- महत्, बल-
 य- > पलीयस्- १७°, १५२°,
 पलीयस्व- अन्तर°, अकारगुण°,
 कारकविभक्ति°, रतद्वित^४ x x, *वल्-
 वादन- ४७°, बल्ल- पा ५, २,
 १७°, बल्ल- १२५°

पलाक का- कलविह^५, १२३°, निनु-
 राक°, ३२४°, विपुनपर^६, हस°,
 पलाहक- गज-द^७
 वैलि- अति°, १वर्चन°, १उदक^८ x x,
 वलिकमं^९- आनुकूल्यद त°,
 महाविष्य°, लुहोति°, बलिहरण-
 अग्निवच^{१०}

*वलिदा^{११}- उत°, + ✓वलिह उप°,
 पलीवर्द- गो°, वल्, वाज-
 १७४°, १मुष्, २शुष्, शुषि°,
 श्रुतृष्, १वस्त- १अध^{१२}
 २शुष्, १शुष्ि°, स्नातक°,
 वास्त- २मार्ग°, *वस्त शिरस्-
 न वाधौ २, १, ७, ११

वहिस- अतृ°, बाह, हा- पद
 रैति°, १विल°, रस्य°, *वहिर-
 गन्-माल्य- शरण- अग्निमु
 न°, बहिजांनु- १७°, *वहिर-
 कायं- १अ°, १सर्वकर्म^{१३}, *वहिर-
 कृत- प्राग्, १सर्वकर्म^{१४}, वहिष्य
 मान- १अहीन°, ३आज्य°, २आय°,
 च्छुविश°, त्रिदृ°, बहिष्यमानदवा-
 आहवनीय°

वहु- १अ°, १एक°, द्वि°, सु°, बहु-
 गण- १३°, बहु (गु >) गृ^{१५},
 बहुत्व- पा ५, १, १२२ [°त्व-
 द्वित्व°, प्रत्ययार्थ°, मजमान°,
 समास°, १बहुदेवत, ता- द्विदेवत°,
 लिङ्गोक्त°, २बहुदेवता- अन्वयादि°,
 इन्द्रादि°, पर्वन्पामितादि°, मन्त्रोक्त°,
 बहुदेवत- १द्विदेव°, *बहु नभ सु
 काल सुखादि-पूर्व-, बहुपाद-
 १अ°, *१बहु विस्त- > २बहु-
 विस्त-, वैस्तिक- पावा ५, १, ३१,
 बहुभाविन्- १अ°, बहुपात्रिद-
 पुष्यशुविदृष्ट^{१६}, बहुरूप- धान-
 न्तर°, १बहुल- आशीर्वाद°, कोटि-
 ल्य°, पात्रे°, पात्र°, प्रवाद°, अद्वि-
 त्वात्, बहुल- इति°, व्याधि°,
 बहुवचन- एचनचन°, द्विवचन°,
 नपुंसक°, प्रथमा°, राजन्°, रत्री°,
 बहुवन्, *बहु-वादिन्- १अ°,
 बहुविद्^{१७}, बहुवीदि- अन्वयो-
 भाव°, प्राच्, *बहुवीदि- व-
 स्युदाय°, बहुवीद्यथे-, *बहुवी
 द्य(हि म)वीति- १अ°, बहुस्वार-
 चर्षं, बहुक्षर-, बहुच्- १अ°,
 बहुच- अघर्षुं, छ-रोग°

✓वाह् अण° अण°, वाह- अन्तिक°
 ✓वाष् अण°, अभा°, अर्ष°, वा°,
 उप°, उपा°, नि°, निदृ°, प्रा°, परि°,
 ङ°, वि°, लम्, *वाष्- ४अ°,
 वाध-, २वाधक- १अ°, *वाधन-
 अपवाद°, दीर्घत°, २वाधक^{१८},
 प्राग्मन-, वाचित- तदतोभा°,
 पुष्य°, *वाधिन्- १लोक°, वाधि-
 नी-, *वाध, वाधयोग, प-

*वाधन, *वाधन-वधोग, प- (परि)
 द, वाधययी- ✓वन्ध् (परि) द.
 रियाल- इनाय^{१९}, इमारो°,
 कुहक^{२०} x x, तालिश- १अ°, *वा-
 हिक^{२१}- कामोत्र°, नान्दार°,
 २अक°, वा, वाह्नीक- चिनर^{२२},
 वाष्कल- लम् कौण २ ५, ३,
 अण ४३, ४ ४४, १याहु- ३उम°,
 २उद°, उवत°, १अक^{२३} x x, वाहु(क)-
 अघर्षुं, ऊर्षं, *वाहु उरन- नदी°,
 वाहुवीर्य- १रि°, २वाहु- >
 वाद्वि- जान^{२४}, *वाहुदा^{२५}-
 नर्मदा°, वि विहाल- अद्विज°,
 १अध° हकलास°, गो १अहुल°,
 वि। वि। व-> वै वैज- गर्ग°,
 वातुमांसवैरदेव°, जामा^{२६},
 १विन्दु- २अण°, ३आण°, उद°,
 १उदक°, १वल्, तैल°, तोय°, वीध°,
 १अध°, १दिम°

वचि-नु- १अण°, विमीदक-
 न्यगोप°, *विमोसि^{२७} कौ २५,
 १६, १विम्य- २आदर्श°, प्रात°,
 १अणक°, वसन्तर २ण°, ३अभी°,
 *वि(म्ब>)ग्वा प- पावा ५, २,
 १०९, १विल- लम् भाषा^{२८} २,
 ७, ३, भाधौ २, ७, ९, वैशौ ५,
 ४ ७ [°त्व- अघर्षुं, १उ, ला°,
 उप°, उपरव°, १उद^{२९} x x] विलेस्य-
 जंतनय°, १विल्य- कलापु°, १अध-
 त्वा°, आव^{३०} x x, वैर- पा ४, ३,
 १५१ [°त्व- १वाण°, पाता^{३१}]

१वीज-आभ°, उगिर°, क्षेत्र°, गो^{३२},
 *वीज विदिफा- उअम्भसहिरत^{३३},
 *वीज-रस रान-न-घ- चर्षं, वीज-

a) = महत्-। b) पमि पृ २१४७ ड द। c) अत्र पावा ५, २, ७ > वनि द। d) पृ १७९४
 'मंग कप २, ४, ६' नेट्म्। e) = वल्। f) पृ १७५६ १। >। द। g) अत्र b नेट्म्। h) पृ ४४५
 'वा' > वने द। i) = नदी विशेष-। j) पाठ 'भूयात् इति कसर्तु टि पमे। k) पु पाघ। वि। इति
 पागम। l) पमि पृ २५४६ p द।

वाप- १धैत्रवापि- वासरध्य^{००},
वीतिन्- १अ^०, १बीश^०- पद^०,
१वुद^०- नद^०

वुद्वुद- १अ^०, १अल^०, केन^०, ४स^०

✓वुष् अतु^०, अमिवि^०, अय^०, २उद^०,
नि^०, ३^०, प्रति^०, वि^०, सप्^०, बुव-
१अ^०, १चोप^०, मुदि-१अ^०, अस्थि^०,
इह^०xx, बुद्धिपूर्व- १अ^०, बुद्धि-
मन्- चार^०, १वुष्- उपम्^०, उपा^०,
१उप- १अ^०, उपम्^०, ज्तर^०,
२उप- गुह^०, वृहस्पति^०, १वुभ्य,
१वुभ्यन्- बोद्धव्य- १बोध-
२वरा^०, सु^०, बोधन- १अ^०, ऊर्ध^०,
पुत^०, बोधित- वाजोर्ध^०, १विभि^०,
१बोधिन्- १बोध, वुष्- अथ-
अक^०, उल्लसल^०, ऊर्ध^०, च^०xx,
१वुभ्य- २अहि> हि^०

वुन्द- २राठ^०, १वुलशस^०-
खले^०, १कीचरय^०, १वय^०, सहत^०,
सहियमाण^०

✓वृह्, वृह् (वधा) अति^०, आ^०, उप^०,
नि^०, परि^०, ३^०, वि^०, सतुप^०,
१उद^०, २वह^०, बर्हिण- २वाचक^०,
ह^०, चर्हिण- १वर्हिणी- १मूल^०,
वर्हिण- १वर्हिण- द्वि^०, बर्हि-
पृथग^०, बर्हिस्- १उ^०, अय^०, आर्ति-
ध्या^०, २भा^०xx, १वर्हिण-अयस्त
रण-प्रोक्षयवचन^{००}, १वर्हिण इप्सा
(भा आ)व्य सिचकृष्- १एक^०,
१वृहण- १वृहिय- १वृह- २वृह-
भौदल^०, वृह^०, गौरीवृत्त^०,
वनामनीय^०, १धन्तर^०, वृहती- १ग
४, १, १६२^० [१ती- वृद्वुद्वु^०,
अर्थ^०, आची^०, आहुरा^०xx], वृहती-

(क)- १एक^०, ततस्^०, वतस्^०,
वाहव- उपरिछात^०, उभावतस्^०,
ऐन्द्रा^०, औष्णिह^०, १अकुम^०xx,
१वृहृष् वाग्भितगण- वीशिकोष्^०,
वृहदमि- चिकित^०, वृहद्वु^०, वृह-
जास- १भा आपथी २, १४, १०^०,
भाथी २, १३, १४, वृहदधन्तर-
अनुपहीत^०, उदपत^०, वषालोक^०,
१लोच^०, १वृहन्-सु(ख >)जी-
अति^०, १वृहृष्, १वृहृष्, वृहृष्- १अ^०,
अय^०रु^०, ऊह^०, ओह^०xx, १माहण-
अतिराम^०, अमिन-द^०, अभास^०,
अर्धडा^०xx, माहणविहित-
१अ^०, माहणायचसिन्- प्रस्तोतु^०,
महा^०, होतु^०, १माहणोक-
इपादि^०, २माहण- १अ^०, अति^०,
अनिल^०, अन्तोवासिन्^०xx, माहणी-
१अ^०, १माहणी-वस्त- माहण-
कसा^०, माहणमावी- व्य आपथ
१, २४, २१^०, माहणभोजन- जल
दान^०, सुवर्णेशुदान^०, माहण-
राज-य- १अ^०, माहणस्व- भूमि^०,
१माहणा(ए म)प्रत कुत- १अ^०,
माहणार्दि- गुणवचन^०, २माह-
णो(ए उ)क- यथा^०, माहणय-
१अ^०, १मह- आ^०, १कु^०, महा
(क)- ४५^०, महाचर्च- १अ^०, अधि^०,
अशिरोर्ध^०xx, महाचरिद्व- रिण
कीधु ५६, १७^० [२- १अ^०,
मार्तव्य^०, २रहित^०, परिमा-
ज^०xx], महाअय- महागवी^०,
महाअपति- इन्द्रा^०, माहणसराय-
इन्द्रनिहव^०, ४६^०, महाअय- सु^०,
महाअव- पाजवान^०, होत^०, १महा-

दावृ- उवावरु^०, महादैव(त्व)>
स्था- ल्ये वैष् २, २. ५, महा
भाग- वनमानभाप^०, १मह-वर्ण-
अम्यन्वाधान^{००}, अम्यन्वाधान^०,
महावर्षस- अति^०, अमिचर^०,
आयुस्^०, अदि^०xx, महावर्षस-
काम- २माहण^०, महावर्षसिन्-
-नम् आपन २, ७, २५^०, महावर्ष-
चपालमुस^०, महासामन्- १अ^०,
नाना^०, वपुकारनिघन^०, श्वेतनी-
पस^०, महासूर- कर्णव^०, महा-
सन- आहवनीय^०, १महोत्स-
गोहन्तु^०, महौदग- द्वि^०, १वृहृष्
वृहृष्- १एक^०, वृहृष्->वृहृष्कुलि-

वृहृष्->वृहृष्- १वृहृष्

वृहृष्पति- अर्धवृ^०, इन्द्र^०, उपव्य^०,
चन्द्र^०, १तिव्य^०, २वृहृष्, मित्र^०,
वार्हस्पत्य- आग्नेय^०, आत्रिररा^०,
ऐन्द्रावरु^०xx, वार्हस्पत्यान्त-
शंभु^०, शयोस्^०

✓वृ, म्यात् वाथ्रीस ३३ १३^० [अधि^०
अनु^०, अनुप्र^०, अय^०, २उद^०, उप^०,
निद^०, परि^०, ३^०, प्रति^०, वि^०], १मव-
वृव- २वाहाण^०, वृवन्- वृवाण-
१अ^०, आत्रिरस^०, गीतम^०, मने^०

भ

१भ- उवर्ध^०, भहार- बोभार^०,
१भकार-पर- १अ^०

भक्ष- ✓भक्ष (परि.) द्व

✓भक्ष प्रति^०, प्रतिसम्^०, तम्^०, १भक्ष-
१अ^०, अचजवारु^०, अतिमाहृ^०,
अय^०रु^०, अनुसरन^०xx, १भक्ष प्रति-
चिह्न- १विहृ^०, १भक्षा (ए म्)य-

a) वेद १. १८८५ पद । b) वेद १ द । c) = भूसा इति नभा । d) इति स्थल शोध ।
e) अत्र १७>१ द. । f) १ १८१२ मत्व. वृहृष् नेदम् । g) १ १८२० यति सध्यासंवेदा द । h) पाठे.
वेद २ २४ अणुमत्वेदा ७ ४, १ टि द । i) १ १८२९ सत्व १स्विदम् नेदम् । j) अद वृष्>यति. द. ।
k) म्यावृत् इति पाठ ? यति वृष् इति च शोध ।

अस्यन्त°, +भक्षा(क्ष-आ)हरण-
 ग्रहण°, +भक्षक- क्रमङ्ग°,
 भक्षण- १अ°, अयुक्तात्°, अन्वोन्म°,
 अयक्ष्°xx, भक्षणीय- १अ°,
 +भक्षम् १उजम्°, प्रत्यक्ष°,
 १भक्षमाण°-, भक्षयत्-, भक्ष-
 क्तिया १अ°, भक्षित- १अ°, अक्ष°,
 वषा°, सङ्कृत्°, भक्षिद्- उच्छिष्ट°,
 क्षीर°, मधुमास°, स्वमास°, भक्ष्य-
 १अ°, अर्थ°, आक्षय°, स्तुष्ट°,
 सर्व°, सोम°, +भक्षय(क्ष-य)च्छा-
 दन- १अ°, +भक्ष्या(क्ष-प्र)दान-
 १माप°, +✓भक्ष (= ✓भक्ष
 [सि३न]) आ°

भग गा- युक्तिन्°, दुर्°, मित्र°,
 १यशम्°, विशम्°, १वेत्°, वेद्यम्°,
 यु°, क्षी°, इद्°, २भाग्य- प्रजा°,
 भगवत्-> भागवत्- भागवती°,
 +भगवृत्ति- भगिष्ठत्°

भगल->भागलि- नार्थ°

+भगस्- ग आए १, २३, १५#,
 भगाल- अन्त°, भगिनी- तद्°,
 भ्रात्°, मातृछानी°, २मातृ°°,
 मातृपितृ°, मातृभ्रतृ°, भागिनेय-
 ऋगस्त्व°, ऋत्विज्°, भागिनेयो-
 मातृभ्रतृ°, +भगोस्- पावा ७,
 १, १, ८, ३, १ [°ए-भोस्°]

भङ्ग क्र- दर्भक्षीर°

✓भङ्ग अतुवि°, अन्वा°, आ°, निद्°, प्र°,
 प्रतिवि°, प्रवि°, वि°, सवि°, सम°,
 १भक्त १अ°, उपरस्त्वय°, १ए°,
 क्षेप°, नोर°, भिद्यता ° ०ड°,
 २भक्त- गृहपति°, गृहिणा°, तद्°xx,
 भक्ति- अग्नि°, अग्निष्टोम°,

आदित्य°xx, +भक्तृ-, +२भक्ष-
 माण-, +भक्तृ-, भजन्ती-,
 +भज्यमान-, २भाग- १अ°, भ्राती-
 पोम°, १अप°, अक्षम्°xx, +भाग-
 धान- सभा°, +भाग विभाग-
 गोत्र°, भागहारिद्- १अ°, +भागा
 (ग-अ) यदान- प्रतोपायन°,
 १भागिद्- १अ°, १भागिनी°-,
 २भागिद्- वर्ध°, आश्रयस्थान°,
 चतुर्थभाग°, १दु ल°, पादोनपल°,
 मद्°, सवर°, १सुख°, सूक्त°,
 +२भागिनी- २अक्षित°, १उभय°,
 +३भा(ग >)नी'- निर्दोती°,
 +५भाभ्य-, भाञ्- १अक्ष°, अन्त°,
 अन्त°xx, १भाजन°- अ भेचानी°,
 ३भाज्य°, १दहा°, १उदक°xx,
 +भाजम्, +भाजयत्-, +भाजयितृ-,
 +भाजि(र >)नी- निपात°,
 +भाज्य-

✓भङ्ग्य अय°, प्र°, वि°, भक्ष, प्र-
 अतिपक्ष°, गज°, प्रदीप्त द°,
 स्कन्म°, स्वयम्°, २भङ्ग- २अक्ष°,
 आदि°, वरपादवन्त°xx, भङ्गयुर-
 १अ°, +भङ्ग्य, +भङ्गत्- १अ°,
 भङ्गन- ०अक्ष°, म-वान°

✓भट > +भट- १चार°

भमण्ड-> १भाण्ड- अग्नि° यय
 वरव°, अश्मन्°, अतकाठ°xx,
 +भाण्डभोजनीयो(य-उ) परस्वर-
 ऋष्य- प्रकीर्ण°, +भण्डी- उपा-
 ल्य°, +भण्डीरथ'- वङ्ग°

✓भद्, न्द > भद्, दा- +दाद्
 आपम १, ८, २, वीष ३, ४, २, शीष
 ३, ५, ३, वीष १, ५ ६ [°द.दा-

१अ°, आशुष्य°, पल्यान°xx] भद्र-
 पदा-> +भाद्रपदा°- पूर्वा°,
 भाद्रपदी-> भाद्रपद- २वीप°,
 भद्राह°-, +भन्द- १कृत्म्°, भन्दत्-
 >°न्ददिष्टि°-, भन्दना°-, भद्रण-
 यठमर्षण°, १भर°-, २भर-,
 भाध्-, भति-, भरिण्यामा(ण >)
 णा- ✓ह (परि) द, भवज-
 पाणित°

✓भस्त् २उद्°, निद्°, भस्त्न-
 अस्वा°, योग°, ✓भल्, +२भल-
 कम्°, १भल°-, मल्लवि->
 भाळविन्- ताकिडन्°, भवस्त्-,
 भविन्-, भविग्नु- ✓भू(परि)
 द, ३भय-> १भाष्य- कैमिनि°

✓भस्त् प्र°, भरत्-> भस्त्रका-
 १अ°, १भस्मद्- अय°, आर्दी-
 पथि°, उरय°xx, +भस्म(क)-,
 +भस्म पौष्ट- ४स्°, +भस्मा(स-
 ष)स्त्व(१य अ)हर-नुप- १अ°,
 भसद्- १अ°

✓भा अग्नि°, अय°, आ°, उपनि°,
 निद्°, प्र°, प्रति°, वि°, चनि°,
 २भ(यत्)- १अक्ष°, अर्थययम्°,
 तद्°, ताश°, पर्वत्°, भा°-, भात्-,
 भा-ती-, +भाठ-, +भाठय्य-,
 +भाति-, १भातु- भविण°, वृहत्°,
 सु°, सुवद्°, १स्त्°, स्त्°, +भाय
 (र >)री-, भायुरि- गारु°

+भायव°- १भित्त°, भारिक- ✓यु
 (परि) द, भायम् ✓भू(परि) द
 ✓भाप् अतु°, अय°, अग्नि° आ°, उप-
 यम्°, पारि°, प्र°, प्रति°, १अ°, व्या°,
 छम्°, +भाप- आत्मने°, परस्मे°

a) पृ १८३८ यनि सख्यासंज्ञक द । b) = भाप- । c) पाद < भगवद्- । d) पृ १८४१
 यनि संख्यासंज्ञक द । e) पृ १८४४ यान सख्यासंज्ञक द । f) वरारि अय प्र । g) भागदपर्य प्र ।
 h) भाप (विद्-द-) वरारि अय प्र । i) व्यप । j) पापो पृ २०८० h द । k) सार्थ प्र । l) अय
 ध > ङ द । m) पृ १८४७ यनि सख्यासंज्ञक द । n) विप, नार । o) भाप । p) = < १भातु-> नर ।

*भाषक-भाषण- इच्छुत्, अलोल°,
असल°, अतम्°, भाषमाण, पा-
*भाषवद्- १अ°, भाषा- १अ°,
आत्मने°, उच्येत्°, उच्यमान°××,
भाषित- १गति°, १मृत्°, लौक्यं
मत्°, भाषितपुस्क- १अ°, भाषि
तुम्, *भाषिन्- बहु°, *भाष्य,
रभाष्य- सुमन्तु°

✓भास्व ऋ०, आ°, २उद्°, वि°,
मास- अति°, ज्योतिस्°, प्रतिद°,
प्रातर्°, गृह्यत्°, भास्वर- चन्द्र°,
पर्जन्य°, मृगशिरा°, १भास- अन्त-
हित°, अथगत°, प्रगृह्यत्°, गत°,
स्वर्णसमान°, *भासिन्°, भास्वर-
महत्°, रभास- त्रैलोक्य°, यथाय-
शीव°, देभास- कलविद्ध°, गदेभ°,
रेपह°, इवायत्°, विपुविपार°,
यथावास्त्°, स्त्र° हृत्°

✓मिक्षु > मिक्ष- द्रु°, सु°, मिक्षम-
शु°, *मैक्षण°- उदयानविक्षण°,
मिक्षा- अक्षित°, पिक्वाच°, मैक्ष-
अक्षदि°, चर्°, १मूल°, मैक्ष-
चरण- अग्नीपान°, मैक्षचर्व°-
मैक्षलाधारण°, वपन°, मैक्षचरण-
प्राणायाम°, वपन°, मैक्षचर्व°-
स्नान°, मिक्षा(क्षा-अ°)°, मिक्षा
(क्षा आ°), मिक्षिव, ता- १अ°,
मिक्षु- प्रज्ञाचारिन्°, मिक्षुक-
शशि°

✓मिद् आत्°, अनुसम्°, अय°,
अय°, जा°, २उद्°, उय°,
उपयम्°, निद्, परि°, प्र°,
प्रति°, वि°, सम्°, मिच्छ- १उय°,
मिच्छि, ची°- १अ°, १उय°
परितुम्°, प्राकार°, मिद्- १अदि°

१गिति°, गोत्र°, १पुर°, १वत्°,
महावाल°, २वत्°, *मिद्-, *मिघ,
मिन्द्व- १अ°, *मिन्दती-,
मिन्दु-, मिच्छा- १अ°, अति-
पत्त°, अथर्वन्°, अनुचम्°××,
*मिच्छ-भाण्ट- मिश्रभाजन°,
भेत्- समय°, लोमा°, भेद्- १अ°,
२अत्°, १अङ्ग°, अङ्गप्रधान°××,
*भेद्-तत्त्वं त्वर्थात्त्वधोपगत्°,
*नदक- ग्रन्थि°, देवप्रतिमा°
एतुद्रहत्°, सेतु°, भेदन- १अदि°,
उत्ता°, बलश°, कृन्सेतुत् न°,
शीरमाहत्°, छेदन°, पात्र°, रौद्र°,
*भेदिन्- उभयनेत्र°, १शुह°

*मिप- अत°, १मिपञ्ज- प्रत्यच्°,
अत° सु°, मेपज- अनन्त°,
२अपचित°, १अति°, अताप°,
२पर्वत्°, विरय°, कीर्तिरोग°, सु°,
मेपती- विरय°, १मैपय- २अप-
चित°, आत्मन्°, तैल°, विरय°,
स्तितारोग°

✓भीषि° वि°, तम्°, १भय- १अ°,
अभि°, अभिस्तर°, अति°××, *भय-
काम लोभ लोभ मोह मद-मत्सर्व-
अथगत°, यथकर- यजमान°,
*भय भोग भीति-भी-
भावा २, १, ३०, *भय लोभ मोह-
लोभ शोक श्रेष्ठ मद मत्सर रजत्र-
व्यपगत°, अथार्थ- नक्षत्र ४°,
अथार्य- त्रिवेग्वोला°, भयमान-
कृत्वास्त्°, अथार्यक- उवात्तासुख°,
भो- १भय°, रोप°, १भीत-
कुद्°, १भय°, शरीरपात°, स्त्री°,
*भोति- १देव°, १भय°, भीम-
उत्थ°, भीष्- धरित°, धाय°,

युस्तु°, भीषण-, भीष्म- ४दोष°
*भीष्म [ग] रथ- २चकोर°, मु-
✓न् (परि) द.

✓भुञ्ज (पालना°) अतु°, अग्नि°, उय°,
परि°, प्रति°, वि°, सम्°, सप्र°, मुक्-
अजोर्ण°, १एक°, दत्तवर्ण°, विर्वा°,
हरिद्रौदन°, सुम्बा १अ°, भुञ्-
अमेव्य°, १पुद्°, मैश्र°××, मुजिष्य-,
भोजिष्य-, *भुज्य-, भुज्यद्-,
भुज्यती-, भुज्यान- १अ°,
भोजक्य-, भोज्- १आप्य°,
१गुण°, १द्वय°, बहु°, भोज्यत्-
१अ°, १भोग- १कान°, बहु°,
मुक्°, राजद्°, भोगोत्तरपद्-
धत्तम्°, १भोज- कमनीय°,
कम्पत्°, भोज्य- १अ°, अह्वय°,
यक्षार°, अक्षारलघण°, अक्षीरार्चा°,
अक्षीरार्क्षारलघण°××, *भोजरी-,
भोजनार्थ- पानार्थ°, भोजनीय-
१अ°, भारद्°, *भोजस- १पुद्°,
विरय°, *भोजिन्- अग्राम्य°,
अभादिमैक्ष°, उच्छिष्ट°, सोपधि°××,
भोज्य- १अ°, अमोज्य°, अर्ध°,
१मक्ष°, मद्य°, विद्म्°, सयम्°

✓भुञ्ज (भौटिष्ये) अग्नि°, अय°,
आ°, नि°, निद्°, २°, प्रयय°,
सम्°, मुञ्ज- द्विगुण°, मुञ्ज- उवर्°,
चतुर्°, भुजग- नतुण्णद्°, *भुज-
द्वय-प्रसारित°, *भुज्य-, *भुजि-
अत°, *भुज्य, २भोग (यत्र)-
आचार्य°, भुरिञ्ज- निवृत्त°,
भुरिगृह्यती- उपारथाद्, ✓भू-
भवन्ति द्विषी २५ ५, ११°, १७
२, ४०°, वभूव अती १५
२२, १°, वभूष पा ७, २,

a) स्वार्थे प्र । b) अत्र(अक्ष) > यति इ । c) अत्र(आक्ष) > यति इ । d) भाप, नाप ।
e) = भिष्यन् । f) इ १८६१८ > अक्ष । g) वय इ इ । h) इ १९०६ स्वय मदन्ति यति शोध
(इ अथ ऋ २, ८९, २, ईत्सुं शोधपत्रम्) । i) यामे इ २१३८ इ इ । j) सप्र देमा ७, १६ आद्यद्वि पागे ।

१४ [आरू, अति, अति, अथा, अनु, अनुसम्, अनेकींxx], सुभूपत्- उभूपत्- ३भव(वप्र)- अति, अद्, अनित्य, आशितम्, क्तु, जलेxx, २भवत्- अनेकीं, एकाही, जत्रणा, दुर्वली, भूत, म०म- ला, मिथुनी, लोहिती, वर्षी, शीती, सपी, मवन्ती- अलदा, मवन्तीपर- मवन- १नरपति, *भवत्- सु, *भविद्, *भवि- ण्य- अन्वम्, आडपम्, नम्, धितम्xx, भविष्य- भूत, भविष्यत्- १अ, १भूत, भव्य, वा- धेनु, पापीवत्, १भूत, राजन्, भाव- १अ, अतिराज, अयत्, अनेकxx, भाव(क)- कर्मस्थ, भावकमन्, १भाव- लक्षण- १अ, भावन-, *भावम् अन्वच्, कृष्णीम्, भाववद्, भाविता- तद्, २भावित्- अमितम्, १एकाक्षर, एरी, नित्य, प्रथम, भावविराम, २भावुक- अधोधुवम्, अनन्तम्, अनन्तम्, अन्धम्, आश्रयम्, नन्मम्xx, २भावय- आरम्भ, १उभय, दुर्वि, शब्द, *मु- मयत्, उम्, दयम्, भुव- मयत्, उम्, भुवन- अयत्, १भू- उह, वरणमध्यगत, भूकम्प- निर्घात, भूगत- १अ, *३भू- १अध, अति, २कार, २कार, कारा, गो, तुलसी, ह्xx, १भूत, ता- १अ, अति, १अ, अन्वच्, अत्रवालxx, भूतपति- अति, भूतपूर्व- १अ,

भूतसंयुव- आ, *भूता(त प्रा) पतन- प्रहायतन, *भूवो(त-उ) वृत्ति- अनुप्रदिकही...न, भूति- १अ, महताम्, १स्व, सूतिकाम- ग्रामकाम, भूजा अन्वच्, तिरस्, कृष्णीम्, १भूम- २भूमद्- उत्तरपद, २स्व, प्रकृति, पल, भूमि- १अ, १अध, अरिष, १हलेxx, मौम- १कृष्ण, १दिव्य, १नील, २पीत, भार्गव, २रत्न, २धम, १शैल, स्वेत, *२भूम- उदच्, १कृष्ण, पाण्डु, भूमिकम्प- प्रहाणभिव, निर्घात, पौर्णमासी, भूमिगत- १अ, भूमिचल- उल्हापात, भूमिचलन- उल्हा, भूमिप्रमाण- यथा, *भूमि-वेग-निर्घात, *भूमि- सव- चवाल्सुख, भूमिस्तोम- पोस्तोम, *भूमि सृष्ट- १अ, *भूय ऊवन्, कृष्णाम्, मिथुनी, विकटी, *भूय- स्मृत, अवाप, अहृदि, दृष्टका, १तन्xx, *भूयमान-, १भूयस्- आहुति, दृष्टका, १एक, यथा, भूयसी- १एक, भूयस्त्र- आनुपूर्व्य, १उपारxx, *भूयस्य- यथा, भूविष्ट- आर्धजन, पाण्डु, यथा, वलीपलित, *भूव(र>)री- १भूर्ज- ३अमी

√भू धनु, अनुसम्, वा, अभितम्, अव, आ, २तद्, उष, उपसम्, निप्र, परि, प्र, प्रति, वि, सम्, सम, *२भर, रा- कला, जार, भार, विधम्, सहसम्, भरी- ३शाकम्, १भरण- १अध, पितृ त्व, सुत्, सव, २भरण-> पी- अनुपा, भवत्, भरहाज- न- ०जस्य शत्रो, लभो [ज- पीतम, २शलिष्ठ], मारदाज- नीतम, २वत्, १वामदेव, विशा- मित्र, भरत- प्राच्य, भारत- गद्व, सुमन्त, भारती- सरस्ती, *भारतिक- पागम ३६०, भरमाण, *भरत्- ऊर्ध्व, विध, ४स, *भरि- आत्म, उदरम्, कुक्षिम्, भरिष्वच्, *भरिष्यमा(ण >)णा-, २भर्त- उना, गर्भ, तद्, पितृ, मगिनो, भूमि, धव, १स्व, भर्वा-, *भर्तृका- अशक्त, १जीत, १सृष्ट, प्रोषित, भार- अल, वे, ३अध, अनङ्ग, १अधxx, *भार सृष्ट- लातक, *भार (र-आ)काच- १वाल, *भारिक- स्वविर, १भारिद्- २३६, २भारिद्- माता, *भार्य- पयत्, भार्या- १अ, अनुद्, उच्य, २अधxx, भार्यापुत्र- तद्, *भार्या-सह मोक्षण- अमितु, न, *भृद्- अनाज, १अध, १रा, १अधxx, भूति- १अध, एना- नन्, *भृत्, भृत्- देवता, पितृ, राजन्, *भृप-, *भृग-

५) वृ ४४९ अतिरम् इति नेष्टम् । ६) देव १६ । ७) उत्तरे प्र । ८) वृ १८०० भूयदीव इति नेष्टम् । ९) वृ १८०१ यति सत्यासकेन द । १०) = भूयस्व । ११) = सोपधि विशेष । १२) कर्पादपणे इति । १३) वृ १८०६ तस्य, -उस्य > यति द । १४) वृ १८०८ यति, सान्यासकेन द ।

२२५°, त्रियमाण-, १सुगु-
 क्षत्रि°, १शौर्व°, २शौर्व°, २शखल°,
 भार्यय- क्षत्रि°, आश्रितेश्व°, गर्ग°,
 गार्धिन°, प्रवत्°, वासिष्ठ°, क्षनि°
 २सुगु- > १सुगु कश्च- सख-
 गिरि°, सुगुपतन- सत्किरिष्य°,
 शृङ्गार- शृङ्ग°, √शृङ्ग > भर्जन-
 धामा°, √शृङ्ग नि°, शृङ्ग- १३०°,
 १श्राम°
 √शृम्, श्रम् २३६°, निरद्°,
 परि°, वि°, व्या°, सम्°, भ्रम-,
 धमर- मुक्ता°, चान्त-, श्राम-
 २३७°, शृष्टि- १४७२°, २३६°,
 त्रि°, विशङ्, १श्राम°, उत°, २शर°,
 ४४२°, १शृप्यु- १श्राज°
 भेदक-, भेदिन्- √भिद् (परि) द.
 भेरि- १४७३°, -दान°, भैक्षण-
 √भिष् (परि) द, भेगभव-
 २हरित°, भोजस्-, भोजिन्-
 √भुज (शालना°) परि द, भोस्-
 भोज° पावा ७, १, १, भ्र- १लेखा°
 √भ्रष् ष्व°, परि°, प्र°, वि°,
 सम्°, भ्रम- जाति°, राष्य°, राष्°,
 स्थान°, १भ्रिन्त्-, १भ्रुस्-,
 १भ्रश्यमान- १भ्र°, भ्रष्ट- आल्लन°,
 एकाग्रपत्त°, एधोपालन°, २स्वर°,
 १दत्त°, √भ्राज् प्र°, वि°,
 २भ्राज- १भ्र°, २भ्राज- १भ्र°,
 भ्राजमान-, भ्राजु- १भ्र°, ज्येष्°,
 तद्°, दुर्°, भिष्°, पुत्र°, २मातृ°,
 रात्र°, सु°, भ्राज् (-क >) का-,
 १भ्राज (दर >) ग्री- १भ्र°, भ्राज्य
 (ति >) लो- पाठ, १, १, ५°, १मातृ-
 मतो- १भ्र°, २भ्राज्य- १भ्र°,
 भ्राज्ययत्- रागपाम°

√भ्राश्र, १भ्राश्रिन्- क्षा°, १भ्रु-
 कावका°, सुखेपग- मूर्°, सुव-
 क्षि°, १भ्रू- रनत°, १लेखा°,
 १शलाका°, १शिक्षा°, सु°, १भ्रु-
 कुसा (स-भा) दि- १भ्र°, १भ्रु-
 क्षेप- मूर्°, भ्रमध्व- १उरत्त°,
 मृत्पापार°, भ्रूण- > भ्रूण-
 श्मिष्ठस्त°, √भ्रैष् > भ्रय-
 १४०°, गवीडादि°, १वृत्त°, २५°,
 श्रत°, स्वराधरपवृत्त°, ह्विष्°,
 हुताहुत°, १भ्रयन्- वि°

म

१म- उषण°°, म°, ७°°x, मकार-
 १म°, अकार°, नकार°, ४५°,
 १मादि°, २म- √मा (मान)
 परि. द, ३म- √मा (दीर्घ) परि.
 द, १मस्या° वीथी २, ५, ११
 √मेह, मद् आ°, २३६° ४म्°, मघ-
 पुनद्°, १वहु°, धुता°, मघवद्- >
 मघोवा शुना°, १मह (व्या) -
 इन्द्र°, १वत्त°, विपुष्, महद्-
 अथव°, गृहत्°, रात्°, १गान्त°,
 सु°, १महत्-पृ (व >) वां- १म°,
 १महद्-बल- सु°, १महद्-नव-
 १म°, १महा (हा-आ) गम- > °न-
 स्थान- २वेदि°, महागिरि-
 क्त-तर्गिरि°, १महा घोजा- प्राय-
 धित°, महामन्- का-यावत्°,
 १देश°, माहात्म्य- तत्कर्मजन्म°,
 महादेश- इन्द्र°, २मव°, १महा-
 देवी- तुलसी°, १महा (हा-अ)
 प्य-गमन- स्थपित्वप°, महा
 नदी- महागिरि°, महामघ(व्या.)-
 भारोदक°, एहपति°, घेत्°, वैश्व-

कुल°, १हस्तिन्°, महापदि-
 पत्तिक°, परोपिह°, महापद्-
 राजक°, १महापथ- श्मशान°,
 १महापथिक- तद्वृत्त°, महा
 पावक- अतिपातक°, सर्व°, महा-
 प्राण- १भ्रावप्राण°, महाफल-
 पीजोपधि°, महाशुद्धी- उपरि-
 टाद्°, पद्मि°, महाभाव-१मप्रय°,
 १महाभारत- सुमन्तु°, महाभ-
 अग्नि°, स्तनित°, १महाभय-
 योग°, महापत्- १पथ्य°, महा-
 यज्ञ- सु°, महाराज- चतुद्°, महा
 शैरव- कुम्भीपाक°, महार्णव- >
 १महार्णव-वीचि-वृक्ष- गजेन्द्रदन्त-
 प्रज्ञापित°, महावीर- १भाषाव°,
 सोमरत्न°, महावृक्ष- एतद्°,
 १महावृक्ष-ऊषा- रमशानायातन°,
 १महावृक्ष-वन्मोक्ष-रक्षाया- रम-
 शान°, महाप्यादृति- १सुर्गा°,
 प्रति°, मनस्वती°, सन्ति°, १महा-
 मत्त- शन्तद्°, चतुर्भिष°, गन्-
 द्राक्षणम्भ°, ४४°, महादीहि-
 ३५५°, महाशान्ति- ब्रह्मजु°,
 श्रुगा°, महास्तोत्रुद्धी- महा-
 गृहती°, महासूक्त- छुद्विष्°, मदि-
 मन्- परिपन्°, महेश्व (वपट.)-
 २४४°, उपाधुश्याव°, महार्णव°,
 माहेन्द्र- मरुत्तवी°, महेश्वर-
 गिरिराजन्द्रपुत्री°, १भृत्°, १महो-
 (हा उ) मव-सु°, १मही(हा ओ) प-
 परिषर्पण- सर्वाक्षिष्य°, १मह्यव्-,
 मह्य- पचिन्°, मित्र°, विद्युत्°,
 विरत्°, १म्°, सु°, १महि- >
 √१महीप > महोयमान > न-
 १४०°, १मकर- १सूर्म°, तिभिर°,

a) = दश विटेष- । b) वर्णादर्थ इव । c) पृ १०८२ प्रति ? यदि गोप । d) यदि स्वत्-
 गोप । e) = १भृ- । f) वैश्व । g) पृ १०८५ यदि सत्पाथकेत. द । h) पृ १०८६ यदि
 सत्पाथकेत. द । i) १ममस्या इत (पथे) शब्दस्थी । j) पृ १०९७ यदि. सत्पाथकेत. द ।

√मध्(शुचौ),मधत्- उ०, मध्-
>मक्षा- १नीत०

*मक्ष- १मधु०, मक्षिका- दुद्रकैट०,
१नीत०, निद्र०, १मधु०, मक्षक०,
स्यो०, २मधु- (> माधुष्पाप
।ग०>श्री०-)

मख- गो०, महत्, सु०, मगध-
२शत०, म-धारि०, १मागध-
२६३०, गाधार०, दुल्हस०, मघा-
५चित्रा०, माघो- > माघ- १२०,
निदाघ०, मार्गशीर्ष०, मङ्गल-
१अ०, अग्नि०, द्वादाहा०xx, मङ्गलो-
द्व०, *मङ्गल-कार्य-सर्व०, *मङ्गल-
फल- अशु०, *मङ्गल-स्वस्वयन-
१शु०, मङ्ग०- १अ०, प्रशस्त०

*मन्वाचिका- गा०, √मज्ज् २उद०,
उप०, उपनि०, नि०, मज्ज, मा- १उदक०,
कटपस० सु०, चिर०xx, *मज्जक-
मज्ज- १अ०, मज्जन- १मधु०,
*मज्जन- , *मज्जित- , *मज्ज्य

*मज्ज- विदास०, मज्जन्- अरिष०,
मज्जा- अस्वि०, मेदस्, वसा०,
मज्जरी- शार्द०, मज्जिष्ठा-> मा-
दिष्ठ- १धु०, *मज्जिष्ठी०- सोम०

मटर- > १माटर०- २पुपावि०,
धौम्य०, मणि- १अभोवर्त०,
अश्व०, अस्तुत०, आश्वन०xx,
मणिमय- सौवर्ण०, मणिव- १अ०,
मण्डु- तैल० नौ०, मधूक०, २म
ण्डल- १अ० अग्नि०, अर्ध०, अश्व
न०xx, *मण्डल द्वीपिन्- १२अ०,
मण्डलेका- का वौथी २५, ३० ४
[का- प्रथम०], मण्डु- जामाति०,

जैमिनि०, १सावर्णि०, माण्डव्य-
जानन्ति०, जामाति०, जैमिनि०,
वाश्वि०, मज्जु०, १मण्डूक- इषो-
कादि०, उदपान०, पुम्भ०, गो०xx

२मण्डूक- > माण्डूकेय- जानन्ति०,
वाश्वि०, १सावर्णि०, *मण्डू-
पिका०- काय० भाष्य ३, १२

मत् सु०, २मत्तङ्ग(वञ्ज)०- खगल०,
*मातङ्ग- ३खर०, मत्त०, २शिव०,
*मत्तविल्लिका- गो०, मत्कुण-
यूक०, मत्स्य √मत् (परि) इ,
१मत्स्य- आगत०, इन्द्रधनुस्०,
१गोधा०, ५क्षत्र०xx, मत्सी- पाग
द, ४, १४९।

३मत्स्य०- मागध०, √मध्, न्य
अति०, अति०, अग्नि०, २उद०,
उप०, निद्र०, प्र०, नि०, मध-
*मयव- , *मधि०- उरथ०, १उरा०,
सु०, ५र०, १मधित- आसु०,
१दण्ड०, रेफन्०, विलयन०,
लघु०, खय०, *माधितिका०->
का(४ श)दि-बद् पात्वा ५, ३,
८३, *मधित्, *मधिन्- पाठ ४,
१०, पा ७, १, ८५, पावा ७, २,
८५, *मध्यान्- , *मध्य, मध्य-
मान- १अ०, म-ध- अग्नि०, अन्व०,
३भाउप०, ३द्विगुणाका०xx, मधिवन्-
धृषिणी०, शुक, > का०, मध्यन-
अग्नि०, उत्तरवेदि०, उपाकरथ०,
प्रथम०, १मनस०, सम्भितव्य-
मध्य- , माघ (वत्रा.)०- १दण्ड०,
*माघो(प-उ)लपद् पा ४, ४, ३५,
*माघन्, *माधिन्- ५अ०

√मद् अतु०, अग्नि०, २उद०, परि०,
प्र०, सप्त०, मच्च- १अ०, अधिष्ट०,
बुद्ध०xx, मत्सर- १अ०, १चाम०,
१जरा०, पैशुन्य०xx, *मात्स्य-
उष्णामृतनान०, १काम०, पत०,
१भय०, मत्सविन्- १अ०, मद्-,
मद्- १अ०, अन्वयत्०, इरम् xx,
*मदक- , मदव्-, १मदन- सह०,
२मदन-सुत०, मदित- , १मदिर०-
मदियु- , मघ- अत्रय०, अतुरा०,
तिष्ठ०, १धीन०, प्रातिभाष्य०,
१मधु०, मुरा०, मयप- स्तेन०,
१मद्- आसुष्य०, २मन्द- १अ०,
१दुष्ट०, म-द द्वा- १उत्तर०, १उप-
धु०, कुठ०, सु०, *मन्द्रा गान-

तनियुत्तर०, *माद्- , माद- सध०,
मादन- इव०, मन्ध०, मादिन्- उ०,
*मायव्-

२मदिर०- श्वादि०, मधुघ- शु०
मद्सु- निचुदास०, विणिकर०,
ह्व०, २मद्र- १अ०, मद्रण-

शुभर्ण०
१मधु- शु दिष्ट १, २४, ६१० [शु-
अश्वन०, अश्व०, आमनोत०,
इरम् xx], १माधय- १मधु०, मा
घो०-> *माघी क- सुदीका-
रग०, मधुच्छन्दस्-> माधुच्छ-

न्दस- ४अ०, मधुपर्क- श्शीत०,
गो०, १पाप०, विष्टर०, मधुसास-
१अ०, मधु- अति०, नि०, मधुर्व-
सर्व०, स्वरव्यघ्न०, मधुविष्ट-
श्लेषन्व०, मधुसू- १छ्य०
मधूक- १शमी०

a) = मक्षिका- । b) पृ १८९० यनि शोध । c) अत्र 1] > 1 इ । d) = मक्षिका- । e) पृ १९०१ यनि सख्यासकेत द । f) = 1पर्यायवर्द्धा कन्या- । g) वैद १ इ । h) नाप (परिन्), व्यप । i) यनि स्थल शोध । j) = दश विधेय- का वद्वालिन्- वा । k) कर्तारि क्त । l) नाप । तदव्ययपयमित्येधे दह प्र (पा ४, ४, ५१) । m) कर्ताव्ये क्त । n) पृ १९०६ यनि सख्यासकेत. द । o) = दैश विधेय- । p) अत्र 1r > p द. । q) सख्याहीनो निर्देश. द ।

मध्य, घटा- १अ°, द्वार°, प्रतिशिक्षा°,
 १अप्र°, कङ्कुली°xx, मध्यग-
 द्वय°, मध्यगत- बहु°, मध्यदिन-
 १अभीवर्त°, भा°, करारयन्तर°,
 पूर्वाह्, रयन्तर°, माध्याह्न-
 गायत्री°, जगत्°, त्रिष्टुम्°,
 प्रातर्°, रयन्तर°, ४स°, मध्यम, मा-
 अरुण्य°, श्लामिका°, श्रुगम-
 यत्°, श्रय°xx, मध्यान्त- जिह्वा°,
 *मध्या(ध्व अ)पर-हाप-पूर्वहाप°,
 *मध्या(प-अ)पर-रात्र- पूर्वरात्र°,
 मध्याह्न- नि°, मध्येव्योतिस्-
 श्रति°, कङ्कु°

√मन्, म्ना, *मास्ता° आग्निष्ट ३, ५,
 ६८, वैपि १४ २३ [श्रुत्, क्षय°,
 अग्नि°, अग्निधि°, अग्निव°, अग्नि°,
 आ°, नव°, प्र°, प्रन°, प्रया°, वि°,
 सप्त°, यमा°, सप्तोद्°,] रमत्, ला-
 वीदलीय° तद्°xx, मवि- १अ°,
 अन्वयवियत्°, अन्व°, अन्वु°, अला°,
 दुर्°xx, *मात्व- पावा ४, १,
 ८५, *मत्व, *मन्- आ°, सु°,
 १मनन-, १मनस्- १अच्युत°,
 अर्ध°, आ°, इह°xx, १मानस्-
 १अ°, अथ्यामवि त°, अन्व-
 गत्° आहित°xx, *मन् प्रयोष-,
 *मन्श शङ्का- १अ°, मनस्वत्-
 > *नी- १दुर्गा°, मनोज- १अ°,
 *मनोज्ञ(ज्ञ-आ)दि- इह°, मनो
 रम- अते°, नारुपवन्द°, मनोहर-
 नन्दरक्षि°, सर्व°, मन्त्-, मन्व-
 १अ°, आम्°, अग्निप्रणयम्°,
 अग्निप्रदान°xx, मन्त्र(क)- १अ°,
 मन्त्रहृत्- तद्°, *मन्त्र-द्वयं-

१अ°, *मन्त्र प्रघा- गृह°, *मन्त्र
 योग-प्रतिदिह°, *मन्त्र(न्त्र अ)धि-
 च्छ-दो देवता- कर्धर्वन्द°, मन्त्र-
 बन्- १अ°, मन्त्रवर्ण- यथा°,
 वचन°, मन्त्रविद्- १अ°, मन्त्र-
 मरकार- पुरपयोगित्°, मन्त्र-
 सङ्कृत- १६°, *मन्त्रादि शब्द-
 स्वर- न्ययिभोक्त°, मन्त्रानुदिश-
 -दास्°, मन्त्रानुलोच- -कम्°,
 √मन्त्र श्रुत्°, अग्नि°, आ°,
 उदा°, उच°, उगलि°, उवा°,
 नि°, प्रति°, सप्°, समग्नि°, समा°,
 समुप°, *मन्त्रण-, मन्त्रयमाण-,
 *मन्त्रवितृ-, *मन्त्रयिवा, *मन्त्रित,
 ता-, मन्त्रिन्-, *मन्त्रिणी-,
 *मन्त्रय, *मन्त्रय-, मन्त्रो-
 क्तद्वयता- नाना°, मन्त्रोक
 देवता(क)- श्रिताशन°, मन्मन्-
 सत्य°, सु°, मन्त्र- रद्°, *मन्त्र-
 मन्त्रमा(न>)ता-, मन्त्र- म्पुम्
 वाच ३, १८ [म्पु- अथ्याम°,
 श्रपातित°, आपान्त°, उचैवै°,
 १मान°, तद्°xx], *मन्त्रु समन-
 मन्त्रोक°, हरि°, मन्त्र- १मान-
 पाग २, ४, २१ [मन्- आत्मन्°, जोष°,
 १दान°] *मानन-, *मानित-,
 २मानिन्- १अ° पूर्वनिमित्त°, *मा
 त्-, *मानव-, *माय, *माय-
 मन् शिला- काश्चन°
 मनु- अदन्प°, मानव- अभिशस्त°,
 मानवी- वाद्यण°, *मानव सू-
 च्छन्तोषम्, मनुतन्तु- चिकित्ता°
 मनुष्य- १अ°, प्रान°, १देव°, ४स°
 समसादि°xx, मनुष्य कर्त्त(क)-

१अ°, *मनुष्य-कोश-धीण°, मनुष्य
 यज्ञ-समुल्ल°, *मनुष्य रान-, *मनु-
 प्यराजन्व- ४स°, मनुस्- >
 मानुष- १अ°, अर्ध°, चतुष्पद्°,
 १देव°, दैव°xx, मानुषी- १अ°, नरी°,
 २मानुष्य- > *मानुष्य-हीन-
 श्रोत्रव°, मनोता- पर्यन्ति°,
 हविष्कृत्°, मन्दि- १अरि°,
 आनीत°, मन्वत्- √मन्(परि)
 इ, *मन्लावप्या° जेष्ट १, ११
 २१, १मय- २मय- √मे(परि)
 इ, मयस्- > मयोभु- शतातीव°,
 २भु°, मयूख- १यत्°, पवम्°,
 १स्थणा°, *मयूख(ख-र)ध-
 ४स°, १मयूर- १काक°, १तिगिरि°,
 सुगाल°, मयूरगल- दुमुद°
 १मरायु- २राशि°, २मरायु-
 धान्, मरिच- १मधुक°, मरि
 ण्णु- √म(परि) इ, *मरीच-
 पिपली°, मरीचि- गत्°, बाल-
 र्वाक°, *मरीचि जाल- पारपूर्व°
 मरुत्- पण्डित°, आना°, २मन्, इन्द्र°,
 एववा°, गध्व°, मन्त्रोक°, माख-
 श्रित°, आत्मन्°, आर्भव°xx, मरु-
 त्वत्- > *वीय- आनेय°, निष्के-
 क्य°, मैत्रावरुण°
 १मर्क- -क° काष्ठ ३५ १, वैष्ट ३,
 १५ ४ [कं- शरडा°], मर्कट-
 रत्न°, मर्त्य- १अ°, मर्या-
 मर्तु- √म(परि) इ, मर्दन-,
 मर्चि- √मृ(परि) इ, मर्मन्-
 पुरुष°, १मर्षी- प्राणायतन°
 २मर्ष- √मृ(परि) इ
 मर्यादा- अपरक्षेत्र°, आ°, क्षेत्र°,

a) शोध द्वे २, ३च. तैआ ६, १, २ इि इ । b) = १मन्म- । c) इ ११२१ यनि सट्यासवत
 इ । d) इ ११२६ दिराम् > यनि इ । e) इ ११२६ लोक्क > यनि इ । f) पाठ ३ । तप औ
 ८, १, ७ प्रव विने । g) इ ११२२ यनि सख्यासवेत इ । h) इ ११२४ यनि सट्यासवेत इ ।
 i) = मर्या- । j) = बहुवचन-विशेष । k) यनि इ ११२६ इ इ । l) इ ११३० यनि सट्यासवेत इ ।

प्राप्त^०, नदीर्षित^०, पूर्व^०xx; मर्यादाव-
चन-रहस्य^०, मर्श^०, मर्शन- ✓मृत्
(परि.) द.; मर्द^०- ✓मृत् (परि.) द.
मल- १अ^०, जीर्ण^०, द्वादश^०,
निर्^०xx; मलवत्- जीर्ण^०; *मला
(ल-म) पकव^०- १अ^०; १मलिन-
> *मलिन-ता- सत^०; मलिनो
✓ह^० > *अरण- १अ^०; मलय-
(> *य-वाह >) जी- पा.) पाव
६.२, ११०^०; मल्लिभु- अर्ध^०
*मल्लु- अर्धवृ^०; *मल्लिका-
रवोर^०; मशक- १उमुय^०,
दंश^०, निर्^०, पतङ्ग^०, मलिका^०, झी^०
मसूर- फेद्व^०, राजमा^०; मस्तक-
२वर्त^०, मूर्धन^०; मस्तिक- एव^०
*महि^०- सहायि^०
महिप- १अत्र^०, १अर^०, अत्र^०,
उद्^०xx; महिपी- १अजा^०,
१अत्र^०, गो^०, तरन्त^०, राजन्^०,
१महिष^०, *महिपी-क्षीर-
विष्वत्^०; २मही- रह^०, १धन्व^०,
चीतोद्भूत^०; *मही-कम्प- १अत्र^०;
महीरह- धरक्षामन्^०, १नर^०, मा
कीसू ३, ०^०; २३७, ३१^० [म अथ^०]
✓मा (वधा.) अतु^०, अण^०, अनि^०,
चव^०, उव^०, उण^०, नि^०, निर्^०,
परि^०, परिनिर्^०, प्र^०, प्रति^०, वि^०,
सण^०, २म^०- अन्द^०, *मस^०- चन्^०;
२मा-, *१मातव्य-, *मासि^०,
*१मातृ- २मातृ, *माती-,
मात्र, प्रा-, *त्री- १अ^०, २अ^०,
अभ्युक्ति^०, अणुग^०, अह्युग^०

१अणु^०, अणु^०xx; मात्र (-क)-
१अणु^०, अणु^०; *मात्रा-लोप-
१अ^०; मात्रिका- १अ^०, सुव^०;
*मापन-, *माप्य, *१माप; *माप-
१महि^०; *१मायु- अन्त^०;
*मारय-, *मिति-, मिमान-, मीय-
मान-; मेय- धारमन्^०; ✓मा
(अन्ते) > २मायु^०- १अ^०, गो^०
*✓मा(दीर्घ) > २म^०- अणित^०
मांस- १अ^०, १अत्र^०, अन्त^०,
अव^०xx, मांस(-क)- १अ^०; *मांस-
भोजन- मेधुन^०; मांसाशन-, *मांसा
(स-मा) सिन्- १अ^०; २मागध-
१अ^०, शायोगन्^०, शरिन्^०, २मादण^०,
१सुत^०; माङ्- > माङ्गयोग- १अ^०
माणव- गोत्र^०, १एठ^०, विस्व^०; माण-
वक- दावी^०, *मातङ्ग- २स्व^०
२मातव्य- ✓मे (परि.) द.
२मातृ- अति^०, आचार्य^०, इन्^०,
इह^०, १देव^०xx, मातापुत्र- १अ^०;
मातामह- पितृव्य^०, प्र^०, नातुल^०,
२मातृ^०, राजन्^०, मातुल- आचार्य^०,
आचार्य- लोपुन^०, अतिव्य^०xx,
मातृ(-क)- १अ^०, १जीव^०, प्राचीन^०,
*मातृ-पितृ योनि-संबन्ध- ग-
कामन्^०. *मातृ-वितृव्यभार्या-
भगिनी- १अ^०, मातृवंश- पितृवंश^०,
मातृपत्य- वितृव्य^०
*मातृचाद- वृ^०, माधितिक-
✓मत् (परि.) द.
✓मान् उण^०, २मान- अस्व^०,
अव्यया^०, अति^०, अणुग^०, अणु-

ष्टाणुति^०, अनुवात्^०xx
मानन- ✓मन् (परि.) द.
२मानस- १उत्तर^०
*१मा नः सपत्न^० द्वि २, २७, ८; *१मा
नः सपत्नी^० आश्रि २, ४, १: २०
मानित- ✓मन् (परि.) द.
*मान्धाल^०- निनुदाह^०, निनु-
विष्क^०; मापन-, माप्य, १माप,
माप- ✓मा (वधा.) परि. द.
२माय ✓मे (परि.) द.
माया- १अणु^०, १अहि^०, कोष्ट^०,
कु^०, १स^०; *माया-मूल-कुडुक-
कारिका- पणिका^०; मायाविन्->
मायाविनी- गणिका^०; २मायु-,
माप्य ✓मा (वधा.) परि. द.; मार-,
मारक- प्रन्. ✓म् (परि.) द.
✓मार्ग > *मार्ग- १आर^०
१मार्ग- १अ^०, अर्ध^०, १उत्तर^०,
अर्ध^०xx; *मार्ग-रस-द्रव्य-दूषण-
वापीतडागोदपानभेद^०; ३मार्ग-
✓एञ् (परि.) द.; १मार्जार-
१आक^०, गो^०, प्रेत^०, १मयङ्क^०xx
मार्जालीय- शमीद्रव^०, ६९^०, १६वि-
पति^०, मार्ज्य ✓मृत् (परि.) द.
मालत- > *ती- १वट^०, मालच-
छुट^०, सौराष्ट^०
माला- २अ^०, अलिदीर्घ^०, इष्ट^०,
उत्पल^०xx; १माल्य- एष^०, गन्ध^०,
प्लु^०, पवित्र^०, तिल^०, लोप^०xx;
माल्यानुलेपन- शैत^०, *माल्या(व्य-
अ)म्वर- युक्त^०, १माय- १अ^०,
२अवत^०, अर्ध^०, अतु^०, १एक^०xx;

a तु. पायम. 1 b) = देव-विशेष- 1 c) इ ११४० वनि. सख्यासंकेतः द. 1 d) इ १२६० 0
द. 1 e) वरुण क प्र. 1 f) कर्तारि वसि प्र. उस 1 g) वैव १ द. 1 h) = परिच्छेदु- 1 i) इ ११४२
अनि. संख्यासंकेत द. 1 j) नाव. (गज- 1 k) इ ११४५ नन संख्यासंकेतः द. 1 l) = [बृहद्विद्यावचनार्थ]
अनि. संख्यासंकेत द. 1 m) इ ४४४ वृ टि तत्रायम् उप. सतमान- इति व मेष्टम् (द्व. 0. 1 ती २८, २, ३). 1 n) पाठः १
शुवचनु- 1 m) इ ४४४ वृ टि तत्रायम् उप. सतमान- इति व मेष्टम् (द्व. 0. 1 ती २८, २, ३). 1 o) = मान्धाल- 1
मानस्य पति इति शोभा (तु. जी वे, १२, ५ भाष २, ३ : ११ Karste, Old च) 1 o) = मान्धाल- 1
वैव १ द. 1

मापक- १हृत्, सीस°, १सुदरो°,
 *माप-विक- बहु°, मापाज्-
 *मापो(प-ओ)दन्- तिजविष्ट°,
 शुद्धोदनम्°, *मापो (प-ओ) दन्-
 तिजमिध°
 मास- अमिहोत्र°, अधि°, अतु°,
 अयन°, अर्थ°xx, मासना°,
 *मास विरोध- स्पष्ट°, मासादि-
 १वृत्त°, मासापवर्ग- पीर्मासा-
 दोषा°, *मासा(स-अ)टम-
 १साधे°, मासर- पूर्ण°
 २मासिध्य- सुज्यरुष्ट°
 √मि(=√मापवा.) आ°, उप°,
 नि°, परि°, प्र°, प्रात°, वि°, सम्°,
 मिन्- मर्त°, *मिल्य, *मिचान-,
 *मीय, मेप्यत्-, √मि मी
 (वधा) आ°, प्र°, सम्°, मायुक्-,
 *मिनात्-, *मिदे, *मीत्-,
 मेभि- °अ°, √मिह् > मेश्ण-
 १इ°, २इ°, चरुधाली°, ४व°
 √मिष्, मिह् अति°, अय°, नि°,
 परि°, प्र°, वि°, उम्°, मीह-
 १पुर्, मेव- मद्दत्°, वि°, १इव°,
 *मष्-तपत्- १अ°, मेव्- नीचा°,
 मेह्- १मपु°, मृत्°, मेहत्-,
 *मेदिर्- गेहे°
 मिहत्,ता- १इ°, १हृत्°, तथा°,
 द्वादशत्°, नद्यत्°, मशीदन°,
 २वृत्त°, हस्तद्वय°, मित्तु- सु°
 मिध- १अ°, १इत्°, गो°,
 १जप°xx, १मैत्र- आश्रेय°,
 रुट°, परन्°, सारस्वत्°,
 मैत्री- १अपु°, *मित्र-वरण-
 देवपुत्रा°, *मिध्रा(न-अ)जिन-
 -नवो। पा ६ २, १६५, मिध्रावहन-

हरि°, मैत्रावरुण- अर्धयु°,
 अश्रेय° ऐन्द्रवायव°, ऐन्द्रावरुण°,
 प्रस्तोतु°, व्रतम्°, वायव्य°,
 ४स°, होतु°, मैत्रावरुणी- बार्ह-
 रथवा°, मैत्रावरुणीय- १इतिथान°,
 मित्रावरुणयोः(धात्वस्तोम-)वाधौ
 १४, ७०, १, ७२, १
 मित्य- √मे (परि) द्र
 √मिध्, मेध् अति°, प्रत्यभि°,
 *मिधित- १अ°, मिधु- १उपु°,
 मिधुन- १अ°, अन्तर्°, अवि°,
 १अव्°, गो°, गोअधावि°, त्पर°xx,
 मैधुन- अरुष्ट°, उष्णाम्बुस्तान°,
 गोत्र°, छेदन°, दिवा°, यु°, पर्यन्°,
 मंगल°, विवाह°, धाट°, धीनन्°,
 मैधुनेच्छा- वृत्ति°, *मैधुनिक-
 वैर्, मिधुनी√भू > *मिधुनी
 भवष्- १अ°, मेपन- मेधित-,
 *मैधि(२ >)वो-, मिथिला-
 साके°
 √मिद्, मेद् > १मैद्- वसा°,
 मेदस्- उरर्, पुर°, मरुर्°,
 फसा°, इक्ष्°, सुरभीहस्तित्°,
 मेदस्(-क)- १अ°, √मिष्
 अति° आ°, २उद्°, *३मेध्-
 अवि°, √मिन्द् > मिन्दा->
 मिन्दासुवी- मनसस्ती°, मिन्दाह
 र्वाआविनादि-दीन् वैष्ट ६, १
 २३, ६ २, ६
 √मिस् > *मेडिन्- गेहे°
 √मिश् २उद्°, वि°, सम्°, मिध,
 धा- १अपु°, अयत्°, १अयत्°,
 अवका°, अयदान°xx, मिधधान्य-
 मुत्त°, √मिधि, परि°, मिधित्,ता-
 १मसत्°, मद्भस्मत्°, सर्वप°,

मिधो √भू > मिधोभाव->
 *मिध्रीभाव-गति- १अ°, *मिश्-
 √मिष्, *मिष्- नि°, *मिष्-
 तदाख्या°, मिषव्- १अ°,
 *मिषस्()°, १मेव°-
 √मी (कन्डे)निद्°, मीत- √मि
 (वधा) परि द्र, मीन- मृत्तार°
 मीय √मि (परि) द्र
 √मील् अति°, अमितम्°, २उद्°,
 नि°, उम्°, *मीलन-, *मीलित-,
 *मीलय, √मीष् उप°, प्रात°,
 *मीयत्-, मुकुट- > *मुकुट-
 (ट-अ)ज्ज-उरर् चिह्न- इत्°
 *मुकुन्दक- पिपली°, मुक्ता-
 मणि°, मयूरगल°, १वज्र°xx,
 *मुक्ताफल- मणि°, १सुवर्ण°,
 *मुका(आ आ)बली- कुरम्°,
 *मुका सघात- क्षीरोदमुक्ति- १°
 मुख- अधि°, अति°, अग्निहोम°,
 १अज्°, अष्टपुत्राप्र°xx, *मौल-
 योन°, मुखवास- १पाप°,
 *मुक्ता(ख-अ)भुज- शेपादि°
 उ°, *मुखो(ख-उ) पपमन-
 अति°, मुखव- १अ°, अट्टवाक-
 वमस°, अक्षयु°xx, *मुत्त्य योन-
 पद्वृत्तहा°
 √मुच्, उच् अति°, अग्निनिद्°, अय°,
 आ°, २उद्°, उप°, निद्°, परि°,
 प्र°, प्रति°, प्रवि°, प्रत्य°, वि°,
 विश°, उम्°, मुक्- १अ°, अतेत°,
 मोदिहर°, यमुस्°, पर्यद्°, प्रज्ञर्°,
 वर्धवापार्थ°, मुखवेध- १अवण°,
 मुक्ति-, *मुच्- अहृत्°, उमुदो-
 त्पलाग्ध°, १एत्°, *मुष्- नव°,
 मुष्य, मुष्यमान, ना-, मुष्कव्-,

a) अय उ नेटम् । b) इ ११५३ मसना > यदि चोष । c) नाप (वर्ण सक्त-)। जु ? ।
 <महिषी- इति अभा । d) कूरि वा भवि वा ह्य । e) = १मेद- । f) म्नुत् प्र । g) = १लाष्ट-
 भे- इति Jolly । h) पर्येति का प्र ।

*मुञ्ज-नी-, *मुञ्जमान-, *मोक्ष-
 *मो(क्त्)रती-, मोक्ष- प्रद°,
 ज्ञान°, वष°, उक्तोद्गल°, मोक्ष-
 दालिपत°, मोक्षण-मुञ्जच्छास्त्रुति°,
 मोचन-इन्द्रिय°, सरार°, *मोचनी-
 वधुवास हरशः°, *मोचयन्-,
 *मोचि(न् >)नी-, *मोच्य
 मुख- त्रिश°, भद्र°, १४ण°,
 शर°, शरमय°xx, मौञ्ज- १३७°,
 भाद्र°, धमर°, √मुद् > *मुट्टि-
 १अ°, √मुण्ड् > मुण्ड- आंग्र
 रस°, वाग्मोड°, १वान°, विरुत°,
 प्रथिला°, विरिष्°, मौण्ड्य- मून्°,
 मुण्डित- वा-त°, *मुतव°-
 शस्त्रण°, √मुद् प्रदु°, प्र°,
 प्रते°, सप्°, मुद्- दसा°, मुदिव-
 १अ°, मोद्- वाग्यततम्°, उभय-
 ल्प°, १५२°, मोदक- १२५ि°,
 रेण्टि°, प्रतिशर°मुद्र°, १मोदन-,
 *मोदनी- १२वा°, १मोदमान-,
 *मोदिन्-, मुद्ग- तिस°
 मुद्गर(श्रा)°- निरिदिश°, १भस्व°,
 शल°, मुद्गल- >मोद्गल-
 >*मोद्गल- आर्वाविन्°मुद्रा-
 अक्षुलि°, नागदन्तर°, १२५°,
 मुनि- अत्रि°, १देव°, महत्°,
 १भौन- स्थान°, स्थान°, मोदिन्-
 काष्ठ°, १भौन- यदर°, वास्ठ°,
 मुरज- मेरी°
 √मुप् आ°, निट्, परि°, प्र°,
 *मुप्- १यष्ट°, मुपित- नग°,
 *मोप°- २वाम°, मोपज-,
 *मोपिन्-, मुप्य- ४अ°
 मुष्टि- १अ°, ३व्यय°, १एक°xx.

*मुष्टि ह(व)जा- १अ°
 १मुसल- उल्लाल°, चर(धा)ली°,
 पवित्र°, सन्न°, शिप्रर°, रयव°
 *३मुसल°- श्रुष°, मुस्त-
 भद्र°, √मुद् उद्°, परि°, विप्र°,
 कम्°, १मुव- १अ°, कुद्°,
 तमम्°, मोद्- १अ°, उष्णाम्नु-
 स्थान°, १शाम°xx, मोहन-
 रेना°, मोहित- मति°, लोव°,
 *मोदिन्-, मुहूर्त- अभिविद्°,
 ऊर्ध्व°, चहुर°, तिथि°, वि१व°,
 १५५°, ४अ°, उ°, मुहुस् पुप्°
 *√मू(मती) प्र°, १मूक- १अन्ध°,
 उन्नत°, १जड°, वाग्यन्ध°,
 पापशु°, २मूक- > *मौक-
 वस्ठ°, वास्ठ°, *मूतव°-
 २शुषठ°, मून्- अरवती°, उष्ण°,
 २केल°, गो°xx, *मौत्र-, *मौत्र
 धौत- १अ°, *मूत्रकृतवालस-
 मीठ°, मूत्रपुरीष- बधोपपाद°,
 मूत्रपुरीषकरण- श्रुवरक°, मूर-
 १अ°, मूर्ख- पतित°, √मूर्खी°
 मूर्खेना- तान°, मूर्ध- १अ°,
 रायम्°, मृति- १अ°, अति°, २अ°,
 तेजस्°xx, मूर्(खं >)णी- √मृ
 (परि) द्र
 मूर्धन्-, *र्धो- अर्ध° तपुस्°, त्रि°,
 द्वि°, प्रवेशिनीमूलानावष्ट° वप्°,
 हत° २समान°, १२१°, हिरण्य°,
 *मूर्ध- त्रि°, द्वि°, मूर्ध-य-
 १ओरस°, कव्य°, विह्वय°,
 पथिक°, *मूर्ध-य भाव- दन्व°,
 *मूर्धं प्रभुः(वि उ)दर्क-, *मूर्धं-
 मस्तक- १अ°

१मूल- १अ°, १अप्र°, अङ्गुलि°,
 अङ्गुलिनिष्ठिका°xx, मूलहोम-
 मम् वैष्टि° २, ६ १२, १२. १५,
 २५xx [°म- प्राजापत्यादि°],
 मूलाप्र- सर्वाङ्गुलि°, *√मूलि,
 *मूल्य २उद्°, मूल्य- र्द्यति°,
 २मान°, विनष्टशु°, विनष्टस्य°,
 हीन°, *मूल्य-सावस्तरिक- तरन्°
 २मूल- १तिष्य°, *३मूल°-
 माया°, मूप- >मूपा- जालु°
 मूपर- १शक°, १मण्डक°,
 १माजरी°, वानर°, शलभ°,
 श्वर°, मूपिक, का- १अक°,
 १मण्डक°, स्त्री°, √मृ, मृ अतु°,
 अग्नि°, आ°, उव°, परि°, ४°, २मर-
 १अ°, दुर्°, मरक- व्याधि°, मरण-
 क्षु छर°, छपति°, १जन°, जनन°xx,
 मरणधर्मन्-, *मरिण्यु- १अ°,
 मत्या- पुन°, *मरुत्- १अ°,
 *२मर्द- १नल°, *मार- १शाम°,
 १जन°, मुमुक्षा°, १सिद्ध°, *मारक-
 जनन°, मारण-, *मारयत्-,
 मारि- १विप°, *मारिन्- पुनर्°,
 *मारिणी- पूर्व°, मायक-, *मृ
 (खं >)णी- १मृत्, ता- १अ°,
 अज्ञात°, अन्नघन°xx, रतक- एधे-
 रिष्ट°, १घात°, *मृत-नख- स्वर°,
 मृ यु- अति°, व्य°, अवरुण°,
 क्षुप्°xx, मृग- अक्षयाद°, अक्षि-
 त° अमुक्त°, शरवण°, २अतित°xx,
 मृगी- > मृगीधीर- उष्णीधीर°,
 २मार्गी- एष°, २कृष्ण°, मृगपर्व-
 पावा ६, ३, ४१°, *मृग मद्-
 चन्दन°, √मृगय > मृगयु-

a) = वृष् विशेष । b) नाप (आयु र, नास्य) । c) वै १ द । d) = वृष्- ३ ।
 e) = मुतय- । f) पृ १९५५ मूलशाखात् इत्यन अप १२, १२ १५, २५xx इति मेष्टम् । g) = घनशुद्धि
 (इ मदनपरिघात) । h) माये वप् प्र उल । i) = मृषु । j) वै २, ३ ल द । k) माये कर्त्तरी
 च ह्य । l) स्वाथ या विकारार्थं वा प्र । m) यनि स्थल शेष ।
 वै ४ प्र १-५४

विक्रिसक^०; *सृगध्व(सु-अ)निपु-
चारित्^०- अत्सृष्ट^०; *सृग-शकुनि-
विशेष- शान्त^०; सृगशिरस्-
हृत्तिका^०; शेरुहिली^०; *सृग-
सख्य- पा ५,४,१८

✓सृच् > सृक- १अ^०; ✓सृञ्ज
अति^०, अतु^०, अतुपरि^०, अतुवि^०,
अप^०, अमि^०, अम्यव^०, अवं^०,
२उद्^०, उप^०, नि^०, निर्^०, परि^०,
परिसम्^०, प्र^०, प्रति^०, प्रतिस्म^०,
प्रवव^०, वि^०, विपरा^०, सम^०,
समुद्^०, संप्र^०; *सृमाली^०- पालि^०;
माजैव- चाडाल^०, त्रिःसत्त^०, देव-
गृह^०, प्रतिग्रह^०xx; *माजव^०, *सृजव-
(र>)री-, *सृजव^०, *सृजव-
*सृजव-सृजान-, *सृजव, सृजव-
माज-, *सृष्ट-; ✓सृष्ट आ^०; *सृ-
उव^०- १अ^०; सृडीक- सु^०

*सृडीची- १उजठ^०

✓सृण, *सृ(ण>)ण- प्र^०

✓सृद्, अद् २उद्^०, नि^०, प्र^०,
वि^०, सम्^०; *सृदेन- कष्टक^०,
भद्रकालीरुल^०, शर्करा^०; *सृदित्-
२नगर^०, प्राकार^०, लोष्ट^०; सृद्-
अप^०, मोक्षर^०, १देव^०, ४स^०,
सृज^०, स्वाहु^०; *सृच्-उकल-
१आम^०; सृच्, सृमप- १अ^०,
तेजस^०; सृन्मपी- १अ^०; *सृमप-
लोरे-भाण्ड- सृप्र^०; सृद(क)-
१अ^०; सृचिका- १अप^०, इष्टवा^०,
१सृव^०xx; सार्चिक- वात्य^०,
तेजस^०; सृदप्रहमी- उमण्डलु^०;
सृजाव- मास^०; *सृद^०-,
*सृदिव-, १सृदु-ऊर्णा^०, १सृमार^०,
सृद्, सृहु^०; सार्चि- स्रावाम^०,

सृव^०; *सृदु-स्वर- गवृहंछादि^०;
*सृदनत्-, *सृध; *सृद- ऊर्णा^०;
*सृदत्- ऊर्णा^०, र्णा^०; सृदङ्ग-
२वाक^०; ✓सृष्ट्, सृष्ट्-, *सृध-वि^०;
✓सृष्ट् अतु^०, अतुसम्^०, अम्वव^०,
अप^०, अमि^०, अमिप्र^०, अम्वदि^०,
अन^०, उपपरा^०, परा^०, परि^०,
प्र^०, प्रति^०, प्रत्यमि^०, प्रत्यव^०,
वि^०, व्यति^०, व्यमि^०, व्युद्^०, संवि^०,
सम्^०, सममि^०, समव^०; *सृते-
*सृतेन-, *सृतेय, *सृतेव-,
*सृतेय, *सृतेयान-, *सृष्ट-
✓सृष्ट् अति^०, परि^०, प्र^०; *सृते-
दुर्^०; सृण > *सृणा-वाद-
विवाद^०; *सृष्टे, *सृष्ट्य; ✓मे
अप^०, अपा^०, नि^०, वि^०, विनि^०;
*सृमप^०-, *सृमातव्व-, *सृमाव,
*सृम्य-; मेसला- अपत्^०,
उपरि^०, उपवीत^०, ऊर्ध्व^०xx;
*मेसला(वा-अ)जिन-वण्ड-धारण-
वप^०; मेसक- २रत्न^०

मेधित्- ✓मिष्(परि.) द.; ✓मेष्
> *मेधित्- रत्न^०; १मेघ- अमि^०,
१अज^०, १अभ^०, गृह^०, गो^०,
चतुर्^०, पितृ^०, पुरा^०, प्रिय^०, गणत^०,
३वव^०, भीहि^०, ४स^०, सर्व^०

३मेघ- ✓मिष्(परि.) द.
३मेघस्-; *३मेघस्- १अ^०,
दुर्^०, देव^०; *३मेघस्- चतुर्^०;
२-३मेघा- अमि^०, भीष्^०, प्रजा^०,
भद्रा^०, सु^०; मेधातिथि->मेधा-
तिथि- शासपसासर्^०; २मेधय-
१अ^०; मेधय- सर्व^०; ३मेधया-
>मेधयातिथि- मेधातिथि^०
३मेघक-> मैनाक- केजास^०

मेना^०- १अ^०; मेलिन्- ✓मिष्
(परि.) द.; २मेघ- सृव^०,
१आग^०, *वृत्^०, साररत्त^०

मेघयत्- ✓मि (परि.) द.

मेहित्- ✓मिष् (परि.) द.

मैथुनिक- ✓मिष् (परि.) द.

मोक-, *वृत्ती- ✓सृच् (परि.) द.

मोघ- १अ^०

*मोचक- परिभद्रक^०

मोचनी- प्रभ. ✓सृच् (परि.) द.

मोदनी-, मोदिन्- ✓सृद्(परि.) द.

मोप-, मोपित्- ✓सृष्(परि.) द.

मोहमान-, मोहित्- ✓सृष्(परि.) द.

मौख- मुख- (परि.) द.

मौत्र- मूत्र- (परि.) द.

मौर्षी- ज्या^०; मौलि- हिमाष्ट^०

*✓म्ना(रत्ने) > म्ना- चर्मर^०

✓म्यश् चर्^०

✓म्रक्ष > *म्रक्षत् म्रप्^०

म्रद-, म्रदव- ✓सृद्(परि.) द.

✓सृच्, उच्च अमि^०, अमिनि^०, नि^०;

*सृक-, *सृच्-, *स्रोवत्-

✓स्रेद्, *स्रेदित्- गा^०; *✓स्रे

(=स्रे), स्राय संस्रेद्^०; ✓म्लिः

म्लेच्छ > म्लेच्छ- चारुवा^०;

पदम^०; ✓म्लुच्, उच्च अमिनि^०,
नि^०; *✓म्लुप्, म्लुत्- अमिनि^०;

*✓म्लेत्, म्लेव, सम्^०, ✓म्ले

अमि^०, प्र^०, संप्र^०; *म्लाल-

*म्लान- स्वयम्^०; *म्लाय

य

१य- १अ^०, ६^०, उ^०xx, वकार- १अ^०,
स्यार^०, द्वि^०xx; वकारवत्-
४स^०; यलोव- संप्रसारण^०, २स्तर^०,

a) वृत्. । b) भावाद्यर्थे वृत्. । c) कर्तारि कृत्. । d) वैप १ द. । e) भाप. । f) ४ १९८५
पनि. संवकासंवेतः द. । g) = २-३मेघा- । h) = १मेघ- । i) = २श-मेघ- । ✓सृच् इति उक्त. ।
j) ४ १९८६ id > 0१. ।

हसि°, १यत्-४त्°, योपध- १अ°,
 ३य- ३- (परि.) द, ४य-
 ✓वा(परि) द; ✓यत् > यत्-
 १देव°, विशान°, प्र°, १भूत्°,
 रक्षन्°, *यक्षाक्ष आ/दि- रक्षत्°,
 रक्षम- १अ°, उद°, पाप°, राजन्°,
 रसूर्य°, यक्षनाशन- मन्त्रोक°
 ✓यत्, यम् अतिप्र°, क्त्वा°,
 क्तुद्°, क्तुद्°, अत्°, क्तुप्र°,
 अद्°, अन्तद्°, अन्वा°, अय°,
 अया°, अमिप्र°, अमितम्°, अमि-
 तमा°, अन्तुद्°, अय°, आ°,
 रजद्°, उय°, उपनि°, उपोद्°,
 नि°, निरा°, प्र°, प्रतिनि°, प्रतिप्र°,
 प्राव°, प्रोद्°, वि°, विनि°, ध्या°,
 व्यु प्र°, सनि°, सम्°, समा°, समुद्°,
 सप्त°, *यस्यमान- *यच्छ° यम्°,
 यच्छत्-, यच्छन-, यञ्चमान-,
 १यत्, वा- १अ°, द्विपद्°, वाच्°,
 वाचम्°, *३यति-, *यत्प, यन्तु-
 दुनि°, *यन्तुम्, यन्तु-, यन्तु
 (-क)- ४अ°, यन्त्र- जय°,
 नियम्°, पूर्वोक्त°xx, यन्त्र(-क)-
 मन्थन°, *यन्त्र-कार- तरकर°,
 *✓यन्त्र > यन्त्रित- १अ°,
 १यम्°- १दम्°, निजम्°, वाच्°,
 वाचम्°, सु°, यमन- वाच्°,
 यमनी- १वेत्°, यम्प, यम्पमान-,
 १याम- अतोद्°, आतोद्°, १हृत्°,
 यामक-, *२यामन्- अतोद्°,
 आतोद्°, *यामिद्- क°
 ✓यत् क्तु°, अद्°, अय°,
 अमि°, अय°, आ°, उप°, परि°,
 प्र°, प्रति°, सम्°, *इक्- क्तु°,

*दृश्य, हृज्या- अन्°, अर्धनाम°,
 अमसानि...न°xx, ✓दृष्ट,
 *दृक्षत्- अमि°, हृज्या,
 हृजान- अन्°, यक्ष्यमाण-
 १तुर्वेप°, यन्- १देव°, १यजति-
 आहवनीय°, २यजति- जुहोति°,
 यजन- अययन°, १देव°, देवपितृ°,
 रिन्°, *यजनी- देवपितृ°, यज-
 नीय- पात्तुनीयध°, माघोपध°,
 यजमान- नम् काधो २५, १२, ५°,
 कापधो १४, ३०, ३°, -नाय माधो
 १, ७, ३, ४३° [°न- १अ°, अन्तु
 परधान°, क्त्वयु°, आम्नीप्र°xx],
 याजमान- रह°, २तुम्भवाया°,
 होना°, *यजमान पानी (-क)-
 रह°, यजमानभाग- ब्रह्मनाम°,
 यजमानवाचन- १अ°, प्रणीता°,
 *यसिद्-, यतुच्- अग्निहोत्र°, अय-
 यति°, अयन्तु°, अयमण°xx,
 यातुप- ४अ°, *यतु-कृष्ट- क्तु°,
 यतुर्वेद- अवेद°, *यतुप- १अत्°,
 यतुप(क)-, यतुक्कृत- १अ°,
 १यत्- -इम् काधो १०, ९, १७°
 [°ञ- १अ°, अग्निहोत्रादि°, अवि°,
 २अन्तुद्°, अनुविता°, अ-हृद्°,
 अजायकाम°xx] याञ्जिक- १अ°,
 यज्ञसन्त्र- सर्ग°, यज्ञपति- ति
 काधो १, १२, २४° [°वि-
 यजमान°], यज्ञपात्र- १अ°,
 उदयुग्म°, *यज्ञपात्र-प्रयोग-
 रहस्य°, यज्ञपुच्छ- ४अ°, यज्ञ
 भाण्ड- सोमकण्ठ°, यज्ञबलक-
 चिकित्ता°, याज्ञवल्क्य- आदि°
 शीतम्°, यज्ञविद्योन्, यज्ञवेदस-

यज्ञोप-, *यज्ञ संपुल-, *यज्ञ-
 संरुष्ट-, यज्ञाह- १अ°,
 यज्ञावलिप- अतुष्टा°, अतु-
 स्था°, श्वेत°, यज्ञावलीप-
 वामदेव°, वारवन्तीप°, यज्ञिय-,
 यज्ञीय- १अ°, यज्ञोपवीत- द्वि°,
 मेतला°, १वास्तव°, होतृ°, यज्ञो
 पवीतिद्- १अ°, नित्य°, यज्प,
 *यज्य- १देव°, यज्या-°, यज्यु-,
 यज्यन्- १अ°, १अभ्यर्ध°, यज्यव-,
 यज्य- १अ°, १अत्°, याम-
 अहृद्°, १हृत्°, गृह°, जन्म-
 नक्षत्र°xx, *याम-गृह्य- देवता°,
 *वाल- १उपात्तु°, क्तु°, वाक्क-
 १अ°, अघ्यापञ्, अघ्याज्य°,
 १अहीन°xx, *याजका(क-आ)दि-
 व्याख्यान°, याजन- अघ्यापन°,
 अघ्याज्य°, अस्ति°, प्राम°, प्रवचन°,
 वचन°, *याजनीय- १अ°, याजम्
 शत°, *याज्य- १अस्य°, *याज-
 यत्-माजविष्यत्- १अ°, याजिद्-
 अग्निहोम°, अघ्याज्य°, अहविस्°xx,
 याज्य, यया- १अ°, अमि°, अतुपाज°,
 अतुवचन°xx, याम्यानुवाक्या-
 अजदान°, देवतावदान°, सर्व°,
 १याम्यान्- प्रस्ताम्लाभिपुञ्जित°,
 १याम्यापुस्तोवाचय- अनादिष्ट°,
 हविर्वेदता°

यजनी- प्रभु ✓यत् (परि) द.
 ✓यत् क्त्वा°, अया°, अन्वा°,
 अय°, आ°, उप°, परि°, पर्या°,
 प्र°, प्रति°, वि°, ज्ञा°, सम्°,
 *यतन-, यत्-, यत्न- १अ°,
 अवि°, २केश°, क्षिप्र°xx, *यत्प,

a) लोटि मनु (सु ते ३, ४, ५, ३)। b) कर्त्वायं कृत्। c) वैप १ द। d) १ २८५९
 अममपि निर्देय। e) पामे वैप १, २५४६ ह द। f) पामे वैप २, २४ यज तैमा ३, ११, ६, ४ टि द।
 ह) १ १९९८ वनि सख्याकैल द : h) पामे वैप १ उरथुक् सौ ६, १५, ३ टि द। i) पाम वैप २, २४.
 युवमान ते ३, ७, २, ७ टि द। j) वैप २, १६२४ भा द। k) =दृष्या-। l) कर्त्तारि कृत्।

*यातन- १भक्त°, वेर°, यातना-
 शूलरोहणदि°, *यातयत्-,
 *यातिव- वाय, याथ, त्या-
 श्यति- प्रभु √यत् (परि) इ
 *यथाप्रकृत्य वीथी २६, ११:२

यद्-> २य- य वा ४, १९°, यय-
 अत्राय ६, १६°, यथा १ज°, यथा°,
 विमक्ति°, यथाकाल-, यथातथा,
 १यथादेवत-, यथापुर-, यथा-
 मिश्रेत-> *यथाभिप्रेता (त आ)
 स्थान-, यथामात्र-, १यथार्थे-,
 यथालोकवृहद्भयन्तर-, यथाविधि-,
 १यथासामान्य-, १यथारथान-,
 १यथेष्ट-> *यथेष्ट-असक्त- १अ°,
 १यथोक्त- १अ°, प्रतिपति°, यद्-
 वा ८, १, ३०° [य्- १अ°, जाहु°]

यन्त- आनत°
 यन्तुम् प्रस √यत् (परि) इ
 √यत् *यत्पय-प्र°, *यन्वा-१अ°, ५°
 २यम- *यमय आवथी ६, १६, १२°

[म- १अ°, कनल°, अमिल°,
 मध्य°, महद°, रमी°, रसुर्°, यती-
 २यम°, २याम- ४पार्थे°, यद्दयवाहु°,
 २याम्- आदित्य°, ५चित्रा°,
 प्राप्°, यमक-अनुप्रदिक°, यमसु-
 १अ°, खान्दिनी°, *यमसु क्षीर-
 उदीधीर°, देयम- अनुस्वार°,
 २अनलथ°, १एड°, १ओरस°,
 कण्ठ°, जट्ट°, द्वि°, १नासिक°,
 रग°, रजमान°, सतन्°, सोष्मन्°,
 रार्ध°, रसर°

यमुना-गङ्गा, देयय- अतु°, १याम°,
 एकविंशति°x, यावत्- १कण्ठ°,
 यन्त्र°, गोपुत्र°, चर°, प्रयुक्त°

प्रसृति°, यवपिष्ट-, *यवपिष्ट-
 विकार- शावमांठ°, यवप्रासन-
 प्रोक्षकवदनयन्°, यवमत्- मत्
 द्विथी २ ५, ७°, यवादि- १अ°,
 *यवा (व-आ)वपन- दुपाहुति°
 ४यव- १अ°, ५यव √यु (वधा.)
 परि ३, १यचन- १वारशय°,
 २सक्त°, यवस- आ°, यवस-
 १अ°, एध°, सु°, *यवसे (स इ)
 न्यनो(न-उ)इक- प्रभूत°

यवागू- अयदाति°, गवोपुत्र°, गो°,
 जलिल°, पयन्°

यविष्ठ- रह्यति°, √यद्->
 १यस- १अ°, आतन- इन्द्रस्थ°,
 १कृत°x, यष्टि- इन्द्र°, १पलाय°,
 १केयु°, द्विरण्य°, *यष्टि(क->)का-
 रि°, √यस् अव°, आ°, निर°, प्र°,
 समु°, *यस्य(व->)न्ती-, *यास-,
 *यासिन्-, यस्क- शान्तेय°

√या अच्य°, अति°, श्रुत्या°, मनु°, प्रतु-
 परि°, प्रतुप्र°, अन्तर°, अय°, अमि°,
 अमिप°, अस्तम्°, आ°, आप्र°,
 उदा°, उय°, उयप्र°, उयसप्र°, उपा°,
 नि°, भिद्°, परा°, परि°, प्र°, प्रति°,
 प्रत्या°, नि°, विपरि°, समु°, समा°,
 समु°, सप्र°, *अव- पूर्ण°,
 *या- कण्ठ°, १एव°, १देव°,
 याव- १अ°, यान्ती-, यात-
 १द्वि°, विदेश°, सद्°, यातवाम,
 मा-, मवा-, म्वा-, *यात-
 याम्नी- १अ°, १पातु-, यात्रा-
 २जनय°, शीथे°, प्रणय°, १लोक°,
 १वान- अर्धव°, अर्द्धीन°, आशय°,
 १उट्ट°x, १वानो- कलो°, अन्त-

रिक्त°, वामो°, *यान-भोजना(न-आ)
 सन शयन- १एक°, यापन-,
 याप्य-, ३याम- प्रयम°, यात°,
 १यामन्- उक्त°, युक्त°, नात°, सु°,
 *याय, *यायन्, यायावर-
 शालीन°, यायिन्- विद्रेप°, सु°,
 सतत°, *यायन्- १अ°, १एक°,
 १एव°, पुरसु°, प्रतद°, शुभम्°,
 सायम्°, *यावरी- ५अ°, *यास्वत्-,
 १यु- अश्वर°, १केवल°, एह°, रथ°,
 *वै, √याच् अमि°, निर°, विपरि°,
 याचमान- कएव°, याचित- १अ°,
 अयमित्य°, निधि°, *याचिन्- १अ°,
 १रुष्टि°, *याच्य, *याच्यमा(न->)
 नी-, याज-, याजय- √यत्
 (परि) इ, यातन-, यातयत्-
 याचित- √यत् (परि) इ,
 याचन्-, यावरी- √वा (परि) इ
 यातु- १अ°, १उल्लूक°, अण्ण°, अत°,
 यामक-, २यामन्- √यत् (परि)
 इ, *यामि- सु°, याप, यापय
 √या (परि) इ, २याव- १अ°,
 यायस- पाठ ३, ११९°, *यायु-
 १अ°, यास- √यत् (परि) इ
 यास्यत्- √या (परि) इ
 √यु अमि°, अमितम्°, अय°, आ°,
 २उट्ट°, उदा°, परि°, परिसम्°,
 पक्षी°, प्र°, प्रति°, प्रथि°, वि°,
 समु°, समा°, समुद्°, समुदा°,
 सप्र°, *यय- २ययन्- द्वेयत्°,
 *याव- यावन- १अ°, यावनी-
 शयम्°, *यावन्, *युव-, युव, ता-
 १अ°, अखिलराम°, अमि°, अम् -
 युवद्वय°x, *युति-, *युय,

a) पाठ, १ अय- (विरिक्त) > अं इति घोष (तु वैप २, २६४९ g) । b) पाठ । सवा कठ
 ३५, ५ ह्युत्थ इति । c) यनि रयल-बोध । d) = देह-विशेष । e) पामे वैप २, २५५६ b द ।
 f) वैप २ द । g) २ २०१४ ययत् नष्टम् । = गुणवत् । h) कान्त प्राति । i) पृ २०३० यनि. सप्या-
 उक्ता. द । j) = यामि- । k) कर्मणि अच् प्र । l) उत्तरि भावे च वृत् ।

*यु-वर-, युवर्-, १युवरी-, *यु-
वम्, *युवान-, युवि- १अ°,
१यूप- अवि°, १उ°, १रा°,
*यूप-य- उद्भ्रान्त°; युधिक्-
१अ°, *युव

√युच्छ्, *युष्ण- २°

√युञ् ज्ञातप्र°, ऋजु°, ऋजुव°, अग्नि°,
अभिय°, ऋनिाम्°, ५ा°, २उद्°,
उप°, उपनि°, उपप°, उरु°,
नि°, निरु°, वरि°, प्र°, प्रति°, रि°,
विनि°, विनिरु°, विप्र°, विहम्°,
मनि°, षम्°, गप्र°, युक्, फा- १अ°,
अग्नि°, अग्निचित्°, १अप्र°××,
युक्तय- विकारावयव°, *युक्-
युक्- समावाधिस्वरु°, युधिक्-
१अन्त°, तद्°, ध्रुवोदन्त°, वाचस्°,
*युनि-नाह- ऋदास्त्वल्, युसया
१अ°, १युग-युगपद्-१अ°, हस्य-
दादि°, यौगपथ- युगपदन्वाचय°,
विमर्किक°, युगपत्प्रचल- ऋणु
काठयी १देद, २युग- अक्षिप्र°,
उपानद्°, २कुण्डल°, गो°, वरु°,
१वासस्°, श्राक°, युगल- वरु°,
३युग- कनत्°, १उत्तर°, *उह°,
नद्°, रथ°, २विपथ°, युगलाङ्क-
१उदुम्पर°, १युग- १अरु°,
४युग- १दम्°, १कलि°, २कृत°,
चतुर्°, त्रि°, १देव°, पयसकन्मर-
सय°××, ५युग- अर्ध°, *६युग-
माध्यदिन°, युग्म, म्ना- १अ°, १कर्थ°,
युव°, २कुण्डल°, त्रि°, नेद°, लोचन°,
वरु°, १धोर°, सप्तद्°, १हस्तिव°,
*युगम-सहस्र- १अ°, युञ्- १अ°,
अ-न°, १अक्ष°, अष्टम्यादि°××,
*युजत्-, युज्य, युज्यमान-,
*युजत्-युजान-, योजय्य, य्वा-

योकृ-; योजप्र- दधत्°, १रेा°,
पत्नी°, १युञ्ज°, १वेर°, १उरु°,
५त्त°, योदपमान-, योग- १अ°,
अग्नि°, अद्गुत्°, अतिहान्°××,
योगक्षेम- १अ°, *योग-यत्न-,
१योगिन्- महर्°, *योगी(नि-ई)
इव(र>)री- रानातृ°, २योगिन्-
प्रातृ°; २यौतय, य्वा- १अ°,
अपगत°, २ययौण°, राज्वा°, *योग्य-
वा- यागोपनयन°, *योग्यक-,
योग्य- अग्नि°, त्रि°, दशत्°××,
*योग्य- १ययत्°, योजयत्-,
*योजयितृ-, योजित-, *योग्य-
√युष् मा°, २उद्°, प्रति°, युद्ध- १अ°,
प्रह°, १दरु°, प्रजापालन°, महत्°,
वृषादि°, युष्- अग्निता°, दुस्°,
युधानि- > यौघाजय- इक्षरय-
न्तर°, २रीरव°, युष्- ज्ञा°,
युधि->युधिगम-, *युध्य-१अ°,
*युष्न्- राजन्°, सह°, बोद्-
प्रयोजन°, २यौष- १वाहन°,
*यौधिक- १अ°, *यौष मुद्र-
५त्त°, यौषन-, यौधिन्- आगत°
√युष् सम्°, *युषित, ता- १अ°,
*यौषन- १जन°, यौषदय-, युवन्-
१अ°, पुनर्°, २रथुत्°, युवती-
प्रथम°, यौषन-आत्°, १यात्य°, ६९°,
युवप्रचय- नामव°, युष्मद्->
यम् तै°, युष्मद्- त्रि°, ५द्°,
युष्मद्दस्मद्- आगन्त्रि°, *युष्मद्-
स्मद्-आदेश- निघात्°, यूप- १अ°,
अग्नि°, अद्गु°, १अप्र°, आतन्°,
१एक°××, यूप(क)- १अ°, यूप-
वट- यथा°, यूप्य- १अ°, यूप-
३शाक°, यूपन्- सवतीव°, यूर्त्-
वि°, यै ✓वा (परि) द

योनि- १अ°, १अक्षत्°, अग्नि°,
अन्व°××, योनि(-क-), *योनि-ज-
१अ°, *योनि-दोप- मुक्, *योनि-
पोषण- कृषि°, योनि-संनय-
विद्यामंगुह°, *योनि-महत्- नावा°
योपित्- १उत्त°, योस्- उम्°
यौधेय°-

र

र- इ°, र- ग°, १अ°, १अ°××,
रभाव- युवद्भाव°
रंस्यत्-, *मान- ✓रम् (परि) द.
✓रह् > रहस्- १गत°
✓रह् क्तु°, अन्वभि°, अग्नि°, वा°,
नि°, परि°, प्रति°, सम्°, रक्ष- गो°,
पवन°, *रक्षक- गो°, रक्षण-
बोतभूत्°, गर्भ°, गोत्रा...त्°××,
रक्षय-, रक्षर- महत्°, सह°,
राक्षस- १चाक°, गन्धर्व°,
रुद्रन्°, विनाच°, वल°, रीद्र°,
*रक्षत- युष्, *रथो रूत-गण-
भू°, रक्षा- आतन्°, १कृत°, जी°,
*रक्षि- पथि°, रक्षित, ता- इन्द्र°,
वर्यव°, नदी°, १अलि°, वायु°,
सुर°, रक्षिन्- वन्धन°, रक्ष्य-गो°
*रक्षे श्वर- जीवित°
✓रश्, *रश्चित- वि°, रचाथम्
यौगी १५, १९ °, १रचित-
✓रञ्, ञ्ज प्रति°, अद्गु°, उप°, नि°,
सम्°, २रक- १अ°, मदारजन°,
*रन्-विकार- १अ°, ३रक-कति°,
जीर्ण°, १धूम°, मोली°, २पीठ°,
१लाका°, सुकल°, स्वैत°, रकापाद-
पलविद्ग°, २वक°, रकवञ्ज- धृत°,
४रक-सुरा°, ५रक-> *रक-
सधि- १अ°, १रक- आदि°,
२रक-

a) कर्त्तरि कृत् । b) ऋ १ । < युव- इति पाठि । c) अत्र युवा पर > युवा उभ. द ।
d) न्यप । e) घृ ६३ अच्चायम् इति नेष्टम् । गोप घृ २०५८ ० द. । f) घृ २०५६ वनि सल्यासकेत. द ।

वसञ्ज्°, वस°, सर्व°, ररञ्ज्-
 क्सेड र°, छावतारिन्- कर्म-
 कार°, *रह्नावतारि-क- श्राम
 सत्त°, *रह्ना- रञ्जवत्°,
 *ररञ्ज- क्षीरोद्गु° र°, रञ्ज-
 श्मिरत्त°, कर्द्व्य°, १गोप°,
 शैल्यु°, रञ्ज- १श्वस°,
 उष्णीय°, वनक°xx, रञ्ज-
 महत्°, रञ्जनी- मण°, रञ्ज-
 १ञ्, प्रति°, १श्व°xx, रञ्ज-
 (क,फा) - तपोधन°, निर्°,
 रञ्जस्वल्,ला- अमेघ्य°, दूप°,
 श्वर°, रजी°, *रञ्जो विसा- १ञ्,
 रञ्ज- १दान°, वर्षीवर्ग°,
 *रञ्जनी- नक्ष°, रञ्जित, ता-
 अरुण्यदुग्धु°, सुव्यफास्फुल्ल°,
 १शाम- अदिस°, अन्वत्°, १राम°,
 तान°, रीति°, नाना°, १वीत°,
 रामद्वेष- > *राम-द्वेषिन्- १ञ्,
 रामान्ध- राजत्°, २राम-
 १ञ्, २राम- श्वेत°,
 मन्मथ°, विपत्°, *शराम- प्राण°,
 रत्तर°, ररञ्ज- रञ्जु- अश्वाना°,
 श्रुत्°, अणवलासत्°, आनाय°,
 उपधान°, १एक°xx, *रञ्जु बह-
 १ञ्, *रञ्जुबद्धे (द ए)कपञ्ज-
 श्रुत्°°, *रञ्जु(ञ्जु चो)दि- १ञ्
 ररञ्जुदाल°- *ररञ्जुदाल- कञ्
 विद्°, √रद्, *राटक-, *राटिन्-
 परि°, √रप् > ररप्- तु°,
 रेरण- > राणाघन- > षोड-
 सायमुमि°, रदा- कूर्व°, १वीज्°,
 मरि°xx, रकिन्- > *रकिता ह-
 विष्- विभि षोडो १८,५ ६, ६

६, -वीदि आकश्री १८, १०, १२,
 बीधो २६, १ १६, ३, ६, १३, द्विधौ
 १३, ४, १, *रञ्जो (अ-उ)दक-१ञ्च-
 ग-य°, रञ्जि- > *रञ्जि-क-
 द्वि°, रर- १ञ्, अधि°, अनाधुत्°,
 १श्वश्व°, अदन्तरी° १एक°xx,
 रथकार- तक्षत्°, निपाद°,
 २आह्वण°, रथकृत्- प्रजाप
 झ°, *रथ परित्यक्त- राजमार्ग°,
 *रथ-सूत्र- अक्षप्रतिष्ठा°, रथाक्ष-
 दशन°, रथारोहण- ईश्वरोपेक्षण°
 *रथा (व अ)हृत्- महागिरि°,
 रथ, अथा- तोरण°, देवतायतन°,
 प्रचार°, रथन्तर- १ञ्, अहृत्°,
 रथान्य°, अथन°, वृहत्°, वञ्जा-
 यज्ञीय°, विभक्ति°, रामन्तर- उभ-
 यत्°, निवृत्°, वाहत्°, रथन्तर-
 वर्ण- रेतस्या°, २रथीतर-
 यास्क°, √रद् प्र°, वि°, *रद्-
 द्वि°, रञ्ज- १पर°, सवृत्°
 √रप्, *रप्(र)°श्वी- का°, रप्-
 १ञ्, √रप्ष्, *रप्ष्- वि°
 √रप्, म् म् ऋत्°, अनुसम्°,
 अन्ना°, अभिसना°, ध्व°, उप-
 रामा°, प्रत्वा°, प्रा°, सप्°, सम-
 न्ना°, समा°, *रम्भमान-, *रम्भ-
 व्या-, *रम्भवत्-, *रम्भुम्,
 *रम्भत्-, *रम्भम्, रम्भान्य-,
 रम्भ- > रमात्- र्जी°, *रम्भ,
 रम्भ-, *रम्भण-, *रम्भम्,
 *रम्भमाण-, *रम्भयिवा,
 *रम्भन्-, *रिप्सनात्-
 √रम् अन्तु,अन्, अभि°आ°, उप्,
 वि°, परि°, प्र°, वि°, व्युत्°,

सवि°, *रस्वत्-, *रस्वमाह-,
 रत्,ता- ज्ज्यात्म°, कृषि-
 पशुपाल्य°, ध्यानयोग°, परत्रक°,
 वरणांशमाचार°, १सत्यप्रत्°, तु°,
 सू°, रवि- धर्मशास्त्र°, पापकर्मन्°,
 रम मा- १मनस्°, स्तम्भे°,
 रमण- १ञ्, सृण°, हित°,
 हृदय°, रमणीय- तु°, *रमन्-,
 *रमयिवा, *रम्य, *शराम-
 वाधम्°, तु°, *रामन्- तु°
 रवि- > रविष्ठ- १अच्छिद्र°
 रेख- रवस- √ह (परि) द
 रवि- उचलन°, *रवि-मण्डल-
 वसन्ता°, √रञ् > रञ्ज,ना-
 अशीघोमीय°, एवदक्षिनी°, गर्दभ°,
 द्वि°, द्विगुण°xx, रदिम- १अर्क°,
 १अश्व°, आकीर्ण°xx, रदिम (क)-
 १ञ्, १वीत°, *रदिम मण्डल-
 व्यपगत°, √रत् अभि°, आ°,
 रसत्-, ररस- १ञ्, १अशतो-
 दक°, अन्तर°, अण°, अणुत्°xx,
 *रत् निष्पत्ति- सङ्घर्ष°, *रत् विक्र
 विद्- विदुन°, *रसा (व प्रा)त्-,
 *रसा(स-आ) शिद्- १ञ्
 √रह् वि°, रहस्- तप्त°, *रहस- अणु°,
 ध्व°, रहस्य- १ञ्, अति°, अनुप्र-
 द्विक°, रेवेद°xx, *रहित-उपना°,
 १मक्ष°, मक्षा त°, मातापितृ°,
 यवादि°, वागोप ता°, श्रुत्वा°,
 सर्व-वाचि°, √रा, ररण- सप्°,
 ररिच- १ञ्, राट- अस्वद°,
 १देव°, राठि- १विभि २ आपम
 १, ११, ४, षोड १, ९, ३ [कि-
 १ञ्, अन्व°, ३स], *राठ्-

a) सातये गृभि द । b) = रराम । c) = रस्वत् । d) = [सगीतशास्त्रीव-] परिभाषा-विशेष- ।
 e) पृ २०५२ यनि सेषवाच्येत् द । f) = पक्षि विशेष । g) पृ २०५३ रविनाम् इति नेष्टम् । h) स्वार्थे
 प्र । i) = रथाह- । j) नाप (दन्त)- । k) नावाच्ये ष्ट् । l) वैप १ द । m) = साम-विशेष- ।
 n) पाठ पृ ७०२ b द । o) क्षीरि इत् ।

१अ°, राका- अनुमति°, छराम-
 ✓रञ्ज (परि) द.
 ✓राञ्ज अति°, अतिवि°, अधिवि°, अमि-
 वि°, वि°, अम्°, राज्- १एक°, अङ्ग°,
 अयेठ°, अद्गन्°, विधा°xx, *२राज°-,
 राजात्-, राजन्-१अ°, अति°, अवि°,
 आचार्य°xx, १राजक°-, २राज-
 (क)- अकृत°, *राज काम-
 नृदिमान°, राजकुल- अकुलो°,
 राजन्म- अति°, अयस्त्र°, आयेव°,
 अवि°xx, *राजन्व पुरुष- श्रेयिण°,
 राजन्वैश्व- अश्रेयोवर्मे°, राजपुत्र-
 अश्रेयिणवर्ह°, वृन्मारा°, राज-
 पुरोहित- १अति°, *राज प्रत्य-
 धुरद्वारिन्°, राजमाप- कोदव°,
 राजपृष्ठ- २अरव°, निम्न°,
 पाठा°, विभीष्टक°, विभीतक°,
 राजधर- आहत°, राजस्य-
 अश्रोत्रांम°, इष्टि°, २संज्ञ°, राज-
 सूयपाजिन्- १अ°, राजसेवक-
 श्वेद° २°, राज्य°- अधि°,
 १अल°, जनमेजय°xx, *३राजन्-
 *राजम्, *राजाचिन्वा, *राजित-
 अन्त°, १राज°-, २राजि-
 १अम्°, १उदक°, तिरदय°, तिरवि°,
 १मरमन्°, राजी- उपल°, उलय°,
 १धूम°, सुगव°, रा L खि°, उजीर-
 पाका ५, २, १-९ [- पाठीन°]
 राटक-, राटिन्- ✓रट (परि) द
 राधि- त्री आजो ४, २ [°वि,
 श्री- अति°, म्पुम्भ°, १गहीन°,
 आ°xx], राज- अति°, २अपरा°,
 अर्पे°, अयनिश्चर°xx, ✓राध्

अनु°, अय°, ज्ञा°, प्र°, प्रति°, वि°,
 सम°, राज्-, राधि- १अ°, राध,
 धा (प्रा)°- अनु, नू°, *राधन-,
 *राधनी-, *राधय-, *राधयत्-,
 राधय- १अ°, परिष्क°, सत्य°,
 सु°, *२राधि°- > राधि क-
 पृष्ठ°, *राधित-, *राधिन-, *राधुय
 (रु>)-नी-, *राध्य, राधय-
 १राधि°-, *१राध्यास्तु° शश्री १५,
 २७, १, *✓राप्, राप्-परि°
 धराम-, रामन्- ✓रम् (परि) द.
 *रायस्- वृहत्°
 राच- ✓र (परि) द
 रायन्- ✓रै (हिंसायाम्) परि द
 रायिन्- ✓र (परि) द
 २राशि- अग्नि°, ज्ञान°, ज्ञेय°, जस्तन
 ५°xx, राष्ट- देश°, पृष्ठ°, १नर°,
 निपाद°xx, रासभ- अमेत्य°,
 १अत्त°, १अत्त°
 रास्ता- रक्त°, १शुवर्ण°, राहु-
 १अज्ञारक°, च द°, *राहु प्रहण-
 सुयेंद्र°, राहुवर्षान- निर्वति°
 ✓रि, री आ°, उप°, वि°, अम्°,
 १रीति°-१इत्°, रि-✓रै(परि) द
 ✓रिच् > रखा- १उत्तर°, १द°,
 मट-द°, ✓रिच् अति°, अम्भति°,
 १उत्°, जपाति°, २°, वि°, अति°,
 रिक्त, का- १अ°, १वेद्यु°, *रिक्त-
 का- १अ°, रिक्त- १अ°, अयुन°,
 वृक्षधर्मविराष्ट°, सपा°, *रिष्य,
 *रिष्यमाव-, *रिक्त-१अ°, ✓रिप्
 >रिप्- १अ°, उर्व°, रेपस- १अ°
 रिप्तमान- ✓रम् (परि) द

✓रिक्, *रिक्त्- अय°, रिक्त्-
 १अ°, रेक- १अ°, अकाराअर°,
 अकार°xx, रेकन्त्-, *रेक-सहित-,
 रेक्त्- १अ°, ✓रिम्, रिन्ध-
 वि°, ✓रिम् आ°, ✓रिप्, रिपत्
 माष्ट १, ९, २७ [वि°], रिपण->
 ✓रिपण्य > *रिपण्यत्- १अ°,
 रिष्ट, छा- १अ°, महत्°, रिधि-,
 *रिष्टया (धि-आ)मय-, *रिष्णत्-
 १अ°, रेपण- धरीर°, *२रि(रु>)
 गी- पुरस्, ✓रिह् आ°, परि°,
 प्रति°, अम्°, रिहान-, *२रीति°-
 तास°, ✓रु आ°, उय°, वि°,
 ख- युर्षी°, पुरु°, १लोक°, १इया°,
 र्वनाय-१अ°, *२वय पुरु°, *राय-,
 *रायिन्- १मित°, स्त- १शार्दल°,
 रुवद- १अ°, *रोस्वीति°-उपया°
 ✓रुच् अति°, आ°, २उद्°, उय°,
 प्र°, वि°, रुक्म- १नासत्°, ४अ°,
 सु°, *रुक्म-पाद- शिम्भ°, रुच्-
 पुरस्, पुरु°, सु°, १रुचि- पादाय
 द, ३, १२० [°धि-१अ°, १धर्म°,
 जतकीडा°, घन° २धर्म°, १वृद्ध°],
 *रुचि-वह- पाका द, ३, १२०,
 रुचिर- उपासमौष्ठ°, रुक्-
 २सर्व°, *रोस्-, *रोचक- १अ°,
 रोचन, ना- गो°, घर्मत्त°,
 म्गाकरक का°, सु°, रोचमान-
 १अ°, *रोचिद्- १मित°, रोचिस्-
 १वृत्त°, ✓रुच् आ°, आ°, उदद्°,
 परि°, प्र°, वि°, रुच्>ग्णा-
 रयम्°, रुक्त्-, *रुक्त्नु-, रुजा-,
 *रुचे-, *रुच्य, रोच- १अ°,

a) क्वीर इत् । b) इ २-६६ गनि सख्याधिकत द । c) अत्र d) नष्टम् । d) भाग ।
 e) इ २-७७१ गनि सख्याधिकत द । f) [पक्षे] वागम् । g) भाप, नाप । h) वैप १ द ।
 i) इ २-७७३ गनि सख्यासकेत द । j) पाठ ? राध्या (इ इ २-७७३ निर्देश) . ख (< ✓अम्), उ इति
 शेष । k) = राधि- । l) इ २-७७५ गनि सख्यासकेत द । m) उया कौष्ट ३, १, १० विन्वत् इति, पाठ २,
 ६, २१ विद्व इति च पक्षे । n) = पाठ विशेष- । o) तिन्वत्पाठुक्षरम् ।

शक्ति, १अत्र, आचरित्स्व०x४,
 *रोग-गृहीत-नस्य २००, *रोग-
 विकल-पतित, रोगार्त-१धात०,
 *रोगा(ग-आ)विष्ट-१प्र-५००,
 रोहिन्-१प्र, अहत्, २२५०,
 ली०, स्वातक०

√रु प्रणि, प्र, रु-ली-, रुहित-
 गीत्, नृत्, १भीत०, रुद्र-उच्यु
 मा, १ए०, कालाभि, १भीत०x४,
 रौद्र-प्रति०, छेदन०, रुद्र, *रौद्र-
 गण-हरण०, *रौद्र-शब्द-१इत्, २
 रुद्रैवैव, एव- वे वैपु २, २
 ६ [०:प-२वादि], *रुद्र यज्ञ-
 सर्व, *रुद्र विधान-अनुप्रदिक०

√रुष् अयुं अय, अमिं, अय, ५,
 अय, आसयन, उय, नि, ५,
 प्र, प्रति, प्राय, मि, समि,
 समु, समव, रुद्रा-१अ, १
 *रुद्रि-, *रुष्, *रुष्-५, *रुष्-
 मान-, *रु-वत्-, *रु-पती-
 १अ, *रुस्त्वमान-, *रुस्त्व-
 मान-, *रौद्रव्य-, *रौद्रुम्,
 *रौद्रु-, १रोध-चेष्टामोजनवाच्
 २पुर, *रौषक-, *रौषन-,
 *रौषिन्- *रौष-

√रुष् (=रुह) वि, *रुष्-वीं
 रुधिर-उपल, रुष्, निष्
 न०x४, रुद्र-२कृष्ण, हरिण, १
 शीत-ऐषव, √रुष् > रोप-
 १अ, शोभ, *रोध-अन गोक-व्ये
 भी-व्येभ, √रुह लघ, ५,
 अयव, अया, अयु, अयुवि
 अयव, अया, अयव, अया,
 अय, अय, उदा, उदा, उपाधि,
 उपाय, प्र, प्रविमि, प्रयव, प्रया,

वि, विनि, सम, समा, *रुषित्-,
 रुह- छन्दस्, १पृथे, *रुह०-
 १अम्भस्, २मही, १सस्, स्ता,
 *रुहम्, *रुष्, रुद्र-, रोक्षवत्-,
 *रौद्रुम्, *रोष-, *रोषक-, रोषण-
 द्वां, *रोषवत्-, *रोषवित्-,
 *रोषित-, *रोष्य, *रोष्यमाण-,
 १रोह-अभिन्वव घ, छ-दस्तोम, २
 पर्याय, रोहण-वृ, २स्वत्, रोहवत्-,
 *रोहन्ती-, *रोहवत्-, ०-वी-,
 *रोहयमाण-, रोहिन्- आगत,
 आगत, गरमाण, जरणाम्,
 जवमान, १रोहिणी-मु, *रोह्य,
 रोह्यमाण-, २रुद्धि-> रौरीय-
 पाणिनीय, रूप-पाणाम् काथी
 ५, १३, १०, -०पाणाम् काथी छ,
 १०, १० [०-१अ, वधर,
 अमि, १अ, अयव०x४],
 रूप(क)-१स्, *रूप वी-वयस्-
 तद्, √रुषि नि, सम, *रुषित्-,
 १रुष्-दीर्, १सम, सीतक,
 रोष्य-ईम, रु-१शोत्

रे->रेवत्->रेवती-१तिष्य०,
 श्रेवती->श्रेवत्-१कावेव,
 वैरुव, वाकर, रेक-√रिष्
 (परि) ३, √रेष् (वधा) प्र
 √रेह ल् > *रेह-१अ
 श्रेयु-१अ, अनभिन्ववन०, १पु, २
 १स्, *रेत-ऊर्ष

*रेतवाह-जामाति, रेतस्-
 अमि, असिक, ऊर्ष०x४, *रेत
 स्कम्-उपायानुमान० रेत-
 सिच्-स्वयमातृषया, रेतोपस-
 मु, रेभ->रेभ-वचको, रेप
 गी-√रिष् (परि) ३

*रेभन्->रेभ मधिव-वृण-शु
 +√रे ('हिंसाम्) > सव्-
 १पु

रै-रदम्, रावस्वोप-वहु, शपो
 पाजीय-बाहिर, *रि-वृहत्
 *रैलातक-विपुष्कर०
 रोक-रोचक-प्रम् √रुष् (परि) ३
 *रोटक-प्रति

रोहुम् √रुह (परि) ३
 *रोदाका-वपुष्, रोद्धव्य-प्रम्
 √रुष् (परि) ३, रोप-प्रम्
 √रुष् (परि) ३, रोमन्-अरिप,
 २रुषित, २केश०x४, रोमश ता-
 १अ, वृहत्उत्, भावयव

रोरवीति-√रु (परि) ३, रोहन्ती-
 प्रम् √रुह (परि) ३, रोहित-
 १अ, रुद्रग, १भून् पाठीव,
 वृहत्उत्, मृत्, सर्व, २शे
 हिणी-कृतिवा, १तिष्य, निरुष्य,
 २हत्, रोहितविपीलिका-

रोहितक-१भरत्, विरुद्धत्,
 रोहितक-रुदिर०
 *रोहितफूलीय-काय
 रोहीतक-१पलाव, १विल्ल,
 रोहीतक-१पलाव, रोह्य,
 *रुमाण-√रुह (परि) ३
 शैरोव-इमीपाव, महत्

*शरौहिण, रोहिणक-राजन
 ल
 रूल-कु, व०x४, १कडार-तुरथे,
 जडार, द्वि०x४, कृ-१नामिकव,
 *ल-भाज-उतम, √लक्ष अमि,
 आ, उप, म्, १कल-पद, ल०, २,
 १कल-१अ, अइत्, १अ, अय-

a) अरि रुह । b) पथि वैप २, २ ल वृत्तात् देवा २, ५, ५, ५ टि ३ । c) सव्य पाणाम् >
 यनि. ३ । d) = रत- । e) व्यप । f) वैप १ ३ । g) = पथि विषय- । h) = श्लेषि वेद- इति
 शेषादिय । i) ३ २०१२ 'दि' > यनि ३ । j) = साम विशेष- । k) अत्र १ p > 1 ३ ।

बन्ध^०xx, लक्षित, ता- १अ^०, पूर्व-
 क्षण^०, बहुव्रीह्या^०xx, १८दमण-
 १अ^०, लक्ष्मन्- ३पर^०, द्रष्टव्य^०,
 इन्द्रि^०, १उत्तर^०, उपरिष्टात्^०xx,
 *लक्ष्, लक्ष्- , रलक्ष्- सावित्री^०
 *लक्ष्मण- कृष्ण^०, रलक्ष्मि, मी-
 १अ^०, प्राद्वनीय^०, उप^०, धितिपाल^०,
 ज्येष्ठ^०, √लक्ष् उप^०, √लक्ष्
 समू^०, लक्ष्- उडा^०, दना^०, लक्षु-
 १अ^०, गुरु^०, दीर्घ^०, *लक्ष् (पु-उ)
 प(पा>)प- अन्त^०, रलक्ष्- >
 *लक्ष्-पुरी- वरन^०, विद्वत्^०
 √लक्ष् २उद्^०, कर्म^०, *लक्ष्म-
 विपम^०, १समुद्^०, लक्ष्नीय- १अ^०,
 लक्षित- , *लक्ष्म, √लक्ष् >
 लजा- गुल्म^०, दुग्म^०, पन्^०xx
 √लक्ष् ३प^०, श्रमि^०, २उद्^०, प्र^०,
 वि^०, विप्र^०, समू^०, *लक्ष्पत्- , *लक्ष्प-
 *लक्ष्पित- , *लक्ष्प, *लक्ष्प-
 राविन्- , लक्ष्प- , लक्ष्पुद्- >
 लक्ष्पुदिन्- शेत^०, √लक्ष्, र्भू
 क्लृ^०, अन्ता^०, आ^०, उष^०, उपा^०, प्र^०,
 प्रति^०, प्रत्या^०, वि^०, तमा^०, लक्ष्-
 १अ^०, १लव^०, कीर्त्त^०xx, *लक्ष्पि-
 कल्या १अ^०, *लक्ष्म- बुद्^०,
 *लक्ष्मत्- , लक्ष्मान- , *लक्ष्म,
 १लक्ष्म- परिश्रय^०, *लक्ष्मान, ना-
 १अ^०, *लक्ष्म- दुष्प्र^०, *लक्ष्मन्-
 गर्भ^०, *लक्ष्मन्, *लक्ष्मन्- , लक्ष्म-
 १अ^०, श्रमिपूजित^०, अर्थ^०, प्राप्तर^०xx,
 *लक्ष्मत्, *लक्ष्मिन्- २भाग^०,
 दु^०, *लक्ष्ममान- , *लक्ष्मि-
 अन्त्य^०, लक्ष्मक- उपा^०, √लक्ष्
 अतिवि^०, अगा^०, धत्^०, अवा^०, आ^०,
 प्र^०, प्रायुष^०, वि^०, १लक्ष्म- १अ^०,
 *लक्ष्म शेत- प्रभू^०, लक्ष्मन्-

*लक्ष्मिन्- , *लक्ष्मिन्- , *लक्ष्म
 लयन्- √ली (परि) द.
 √लक्ष् > *लक्षित- > लक्षित-
 पराशर- सभावोपनीत^०, ललाट-
 १पर्य^०, २केत^०, २केयान्त^०, केरा-
 बधि^०, चद^०, प्र^०, दन्म^०, ललाम-
 १कृष्ण^०, २लव- √लु (परि) द.
 रलक्ष्ण- १अ^०, वरन^०, वा-
 मनमि^०xx, *लक्ष्णा(ण वा)विद्-
 १अ^०, २लक्ष्ण- १अ^०, लक्ष्ण-
 वित्तलव^०, पञ्चरुद्^०, १लक्ष्ण^०
 √लक्ष् अ^०, श्रमि^०, वि^०, *लक्ष्पिन्-
 √लक्ष् वि^०, *लक्ष्- १अ^०, चदुर^०,
 *लक्ष्- , *लक्षिन्-
 √लक्ष् > *लक्ष्, लक्ष्- शरत्^०,
 १अ^०xx, प्राश्रवत्^०, २पा^०, २वद्^०,
 *लक्ष्पि- १देव^०, रलक्ष्पि- तिल^०,
 मष्ट^०, रलक्ष्पल- गो^०, मृत्^०,
 सुपु^०, लाक्ष्पूल- मुका^०,
 गोक्षि^०, रीप्य^०, इन^०, लाज,
 जा- २श्रुत^०, अपू^०, २आज्ज^०,
 एव^०xx, लान- लक्ष्प प्रभु √ली
 (परि) द, रलक्ष्प- > १लक्ष्प-
 १तिवितरि^०, रलक्ष्प- √लु (परि) द
 *लक्ष्- लि^०, √लक्ष् अ^०, श्रु
 परि^०, अग्नि^०, अभिपरि^०, अन्^०,
 आ^०, आवि^०, २उद्^०, निद्^०, परि^०,
 प्र^०, प्रत्या^०, वि^०, अन्व^०, समू^०,
 तमा^०, लक्ष्पुद्- लिखन्- , *लिखन्-
 १लिखित- यथा^०, १रन्^०, स्वहत्^०,
 २लिखित^०, लिखित्वा, *लिखन्-
 *लिख्यमान- , १लेख- श्रुत्^०,
 लेखन्- , *लक्ष्मन्-जीवन्- श्रेष्ठ
 २^०, हेरय- वृ^०, √लिख्
 आ^०, उप^०, *लिखन्- , *रलिखिन्-
 लिख्- १अ^०, अह^०, श्रुत्वाक्या^०,

अन्तारिक्ष^०xx, लिङ्गप्रद्वन- १अ^०,
 लिङ्गवचन- सर्व^०, *लिङ्ग विकार- ,
 १लिङ्गिन्- १अ^०, *लिङ्गि-
 वृक्ष^०, √लिप्,म्प् अगु^०, अभि^०,
 अन्^०, आ^०, २उद्^०, उप^०, नि^०,
 परि^०, पर्वु^०, प्र^०, प्रति^०, मि^०,
 समू^०, तमनु^०, लक्ष्पुद्^०, लक्ष्पु^०,
 लिप्त, लक्ष्- अनेष्य^०, अक्षुचि^०,
 २प्राज्य^०, गन्ध^०, घृत्^०xx, *लिप्,
 *लिप्- , *लिप्मान- , लिप्- ,
 *लिप्प- , लेप- १अ^०, अन्म^०,
 उच्छिष्ट^०, *लेपम्, *ले (पक >)
 विका- , *लेप्य, *लेप्यमान-
 लिप्समान- प्रभु √लम् (परि) द
 लिप्सुजा- १अ^०, √लिष्,
 *लिष्- वि^०, √लिष् अति^०,
 अन्^०, २उद्^०, १अ^०, प्र^०,
 *लिष्- अश्रम^०, १अ^०, *लिष्
 (उ >) ली- , *लिष्, लीव- ,
 *लेदन्- , *लेदम् क्षीर^०
 √ली आ^०, नि^०, प्र^०, प्रति^०, प्रति^०,
 नि^०, समू^०, तप्र^०, लय- , *लवन्- ,
 *लान- , *लाप्य, लाप, *लीन- ,
 *लीयमान, ना- , √लु, लु आ^०,
 प्रति^०, वि^०, *लव- १उद्^०, प्र^०,
 लवन्- प्रहृष्ट^०, १रन्^०, निर्ध^०,
 बहि^०, *रलाव- बहि^०, लव-
 उपलू^०, लाल^०, निर्मूल^०, प्रथम^०,
 यथा^०, १अ^०, तल^०, *लव पूर्व-
 १अ^०, √लुक्, *लुप्य आ^०,
 *लुपिन्- १अ^०, √लुद् अन्^०,
 आ^०, तमा^०, *लोदन्- , *लोद
 √लुप् > *लुप्- श्रुत्वाक्या^०,
 *लुप्- पादक र^०
 √लुप्,म्प् अग्नि^०, अन्^०, आ^०,
 २उद्^०, परि^०, पर्य^०, प्र^०, प्रति^०,

a) कर्त्तरि ड्व। b) पृ २१०९ यनि हरप्रतिशेद। द। c) = १०-१। d) पृ २१०२ यनि, सख्यासखेत द। f) = श्रुत्वाक्या भेद।

आयामं*xx, *वाक्-तोद्-आशीचं,
 *वाक् प्रशस्त- अदृष्टदोषं, *वाक्
 सुसुवा- भृत्^{००}, *वाक् स्थान-
 उपास्वादि^०, *वाग् भाटि- मन्त्रो-
 कं, *वाग् व- १७०, वाग्-
 दण्डपाहण- स्तेय^{००}, *वाग्-दैव-
 ल्य- सावित्रं, *वाग्-यम- सचरं,
 वाग्मन- मुष्टिहरणं, वरवरणं,
 *वाग्-मन^० वीप ३, ८, १६, *वाग्-
 मनस- प्रतिपिद्धं, वाचोयुक्ति-
 नियतं, वाचक- १६०, इक्ष्वा-
 कलां,अन्य*xx, वाचन- आगिन्^०,
 १२७७जिन*xx, वाचि- प्रत्यक्षं,
 वाचित- यथाविमक्तिं, *वाचिन्-
 अचिदरणं, अमिधानं, आहृतिं,
 १३७मं*xx, *वाचि त्व- १२७,
 वाच्य ससितं, रवाच्य- १७०,
 चतुस्त्रिंशत्, मद्रं, सहं, *विबन्धा-
 श्रमांतचयं, तथाभूतं, १निवातं^{००},
 प्रहृतिं, विपथं, विपचित- १७०,
 अश्लेषूर्ध्वदं, विवक्षितत्व- क्रिया-
 समाप्तिं, रवञ्ज- रेश्वर्यं, आहुतिं,
 इन्द्रं, इत्^{००}*xx, *वञ्ज-कण्ठक-
 शयन- कुम्भीपाकं^{००}, *वञ्ज मुख-
 आचार्यपुरोहितं, वञ्जिन्- वृं
 *वञ्जिण- घातं^{००}, *वञ्जन्, वञ्जन-
 लपं, *रवञ्जिन्- आगतं
 रंवाञ्जिन्^{००}, रवट- इत्^{००}, १३७^{००},
 वीविदारं, दीर्घं^{००}, *वट शुद्ध-
 औदुम्बरं, रलक्ष्मीं, रवट->
 पटक- अयु^{००}
 वटु(वत्रा)- १६०, वटवा- १७७,
 वारे, वणिज्- कर्मकं, उभटा-
 टिन्^{००}, कृपिं, तस्त्र^{००}, प्रातिभा-
 न्यं, सभूयं, वाणिज्य- अययनं^{००},

कृपिं, कर्मचारवानं, वाशुपाल्यं
 *वण्ट- १राणं, वण्ड- १राणं^{००},
 वृट^{००}, वनं, *वत्, र्वत^{००}-
 क्षाणं, घतएड- तण्डं
 र्वत्स- १७०, अवाच्यं, अनु-
 सृतं, अ-वं, अविधान्यं, अमि-
 वान्यं, निव^{००}*xx, वत्स(-क)-
 वसं, वत्सप्री-> १वत्सप्र- कर्म^०,
 र्वमप्रतिभोचनं^{००}, विष्णुजन्मं,
 वत्सल- १मज्ञं, र्वत्स- गर्गं,
 भागवं, १भृत्, वात्स्य- दीर्घं
 र्वत्स- *वस् (वषा) परि द्र
 वत्सर- अत्यं, भां, इहां इद्, रदां,
 इद्, रवद्, परिं, प्रतिं, सम्
 *वद् भ-क्षां, अतिं, अविं, अत्,
 अनुपं, अयं, अमिं, भां, रवद्,
 उपं, उपयं, उपसम्, परां, पारं,
 प्रं, प्रविं, प्रतिविं, प्रतिसम् प्रत्यभिं,
 प्रत्युं, रिं, विषं विसम्, उम्,
 सपं, रवदि- -जे दाए १, ६, ३
 [वि,ता अन्, कालनमं,कर्म, उर्, रं,
 रवेदं, धुतिरधृतिं], *वृत्, *उच-
 अन्, अट्टं, प्रियं, प्रज्ञन्, गुवां,
 वद- कद्, भिवम्, वाम्, वदय-
 १वदन- अट्टं, अवद्यं, एहवातं,
 गोमाणुं*xx, रवदन-उद्वं, दुमारों,
 नेत्रं, पाणिं, प्रान्, *वदन्-
 *वदन्ती- निम्, *वदमान-
 वदन्तं, वदावद- १अं, *वदित-
 *वदितुम्, *वदितुं, वदितोव()
 *वदित्यु, *वद्य- १अं, प्रियं,
 मद्रन्, वाद्-अच्छावाकं, अदीक्षितं,
 अनारभं*xx, *वाद्क- वादन-
 अन्नसं, नसं, नरत्तदनं, निर्मा-
 ल्यं, १मयुं, वादयद्, *वाद्-

वितुम्, वाहित- गीतं, वृत्तं, *वा-
 दितुं, वादित्र- गीतं, ज्यां, वृत्तं,
 वृत्तं, रथं शिरं, सर्वं, *वादित्र-
 वृत्त गानो (न-उ)पञ्जीविन्-
 तस्करं^{००}, वादिन्- १अं, अट्टं, अन्व-
 वां, आत्मन्, आशिर्षं, अन्वदं*xx, वा-
 दिनी-अग्न्यद्वैतं, अभाजनं, अद्रियं,
 आहुतिपरिणामं*xx, *वादुक, *वाद्य,
 वाद्य- १अं, श्रेष्ठं, वृत्तं, पुस्तकं,
 अन्नं, मुखं, वाद्यमान- १अं^{००}
 *रवद्- उपवाकं, *रवद्->
 वादि- वात्स्यं, *वध्, वधीन्
 आपम २, १३, १^१ [क्ष्णं, अयं,
 आं, रवद्, उयं, निद्, परां],
 १वध- १अं अरुण्यारण्यं, अतु-
 शूनं, अन्तिकं, १अरिं*xx, *वध-
 लोचिन्- अमिश्रितं, वधक-
 अत्, *वधिन्- शूद्रं, रवध-
 १अं, तार्थं, वधि- सत्तं,
 वधार्थ- अग्निं, राजन्^{००},
 रवतिष्ठं, वाधयन्- आनयं
 *वध् (=वह) विं, रवध- वां
 वधू- १उत्, इहं, चरिन्^{००}, १सतिं
 रवध-> कधी- वीरियं
 *वध्रजयक- उदधिं^{००}, *वन्
 अविं, अमिं, निं, प्रं, विं,
 सम्, *वन्- अमतीं, अरतीं,
 १वपुं, १यनं, वनन- १वपुं,
 वनि- आदित्यं, १धृन्, वर्णं,
 २वन्*xx, *ववाठ- अयं, वनिं,
 विवस्वत्, *वाद्-, *वाचनं-
 अयं, १वाच्यं, रवन- १अं,
 अयं, अन्द्, अतिवन्,
 आक्षं*xx, वनप्रस्थ-> वाच-
 प्रस्थ- परिमा १६०, मद्रवादिन्,

a) =रज विपेय । b) वृ ११३० यन्ति सख्यानयेत द । c) =वण्ट- । d) वैप १६. ।
 e) पाणि वृ २२९३ ० द । f) =१वदरं । g) =२वदरं- । h) पाण वृ २०९१ १ द. । i) वृ १११६
 यनि संख्यायुक्त द ।

*वन-सघ- फलावलीतमुद्भूत°,
वनस्थ- नावानर°, वनान्त-
सरित्°, वनिन्°-°, रवन-य-न्यम्
चौष्ट २, ६, ९, वनस्- गिर्°,
वनस्पति- कृपासाम°, आसुरी°,
उपश्लेष°, श्लेषधि, शी°, क्षेत्र°××,
वानस्पत्य- कारण°, सर्व°, *वन-
स्पति शाला- चतुष्कोण°, वन-
स्पतिसच- गोस्तोम°, चपाङ्क-
मुल°, √वनस्प > *वनस्वा°-
१सजात°, वनिष्ठु- ऊनपथ°,
धनिष्ठु- मर्ष°, सुद°, वनिष्ठु-
सय- चपान्मुल°, वनुस्->
√पनुष्य अति°, √वन्द् आम°,
आ, वनिद्- सर्व°, *वन्ध, व-व-
वन्धुर- नि°, घा, द्युष्प, न्य्या-
१६°, १६१°, √वष् कस्या°,
अधि°, इविनि°, अय्या°, अतु°,
अनुमिर्°, अतुप्र°, अन्वा°, अमि°,
अमि°, अमिनि°, अमिनिर्°, अमि-
समा°, आ°, उवद्°, उप°, उपनि°,
नि°, मिद्°, परा°, परि°, प्र°, प्रति°,
प्रतिनिर्°, प्रत्या°, वि°, विति°,
दिनिर्°, न्या°, वनि°, रुम्°, समा°,
समुद्°, उस- अर्षित°, उसकेश-
स्तात°, *उष्प, उष्यमान-, तप
(वथा)- निर्°, वषट्-, वषन-
१अ°, अरुत°, श्लु°××, *वषमा
(न>)ना-, वसन्था-, *वसन्त्रै लु°,
*वषुम्, वष्- ऊर्ष°, १रोमन्°,
*वष, *वष्य-, वष- नृप°,
वषवन्-, *वन्वमान-, वष-
वा ५, १, ५° [प- २के०], १बी०,

शान्फल°, वापन- १कृत्°, केस-
श्मधु° केसश्म°××, वापि- १देव°,
*वापिन्- १बीज°, *१वाप्य,
वाप्य- न्यानि° [प्य- जघन्व°],
*वाप्यमान-, वषा- १अ°, लक्ष्मी-
पोमोव°, अनुवन्ध, न्या°××,
वषा(क)- १अ°, २वषान्त-
प्रवानादि°, वषाध्वषी- १कुम्भी°,
वर्हिष्°, *वषो(पा-उ) त्वेदव-
अभिधान°, वषुस्- २अशुत°,
वीन°, प्रम्वालयमान°, सु°, √वम्
२उद्°, वि°, समुद्°, वमन-,
वान्व- अम्बान°, १वाम°-
निष्ठुयुत°, *वामिन्- तद्°, सोम°
√वय् आ°, *वय- वृषत्°
वयन- √वि (परि) द, २वयस्-
१अ°, अमि°, १अवर°, १उता°,
२उद्°, ऊर्ष°××, वषोषस्- इन्द्र°,
*वषो वषन- हास्यैष्य°, प्राण-
नृप्याति°, वयुन- १अ°, प्यर-
√र (वषा) परि द, २वयफ-
कोदव°, *द्वयरण- १पलाश°
श्वराह- अवान्त°, कश्यप°,
सृष्ट्य°, गो°××, बराहदत्त°,
बराहविहृत- वम् भाषी ५, ५, ९°,
*बराहा(ह-आ) दि- महिष°,
२वयहण- अमि, मी°, इन्द्र, द्रा°,
चन्द्र°, मित्र°, २यम°, विष्णु°,
वैशानर°, वैष्णव°, रस्यै°, १हार°,
वल्गानी- इन्द्राणी°, श्वारण-
१अ°, आग्नेय°, १आप्य°, ऐन्द्र°,
१पथ्य°, मास्त°××, *वयन-मह-
१अ°, वरपतामन्- २बीज°

धायन्तीष°, √वर्च > *वर्च-
अधि°, रस्यै°, वर्चस्- अति
कायन°, आयुम्°, १दृष्य°, दम्°××,
वर्चेरु- मर्षादा°, वर्चस्व- आयुम्°,
वक्षस्प°, वर्ज- वामिन्- √वृत्
(परि) द., √वर्ष अमिष्म्°,
उप°, सम्°, *वर्षान- कालवक°,
*वर्षायत्-, वर्ण- १अ°, अक्षर°,
अग्नि°, अक्षर°, अदृष्ट°, अधि°××,
१२अंक- २२२र°, वर्ण(क)- गो-
मूत्र°, धूपरुष्णानोलपाण्डुर°, वर्ण-
गुण- एवम्°, *वर्ण-वा- २स्तर°,
*वर्ण दैवत लिङ्ग- विष्णु°, वर्णपरि-
ग्रह- वषा°, *वर्ण प्रयोग- सम्पन्°,
वर्णयोग- १अ°, *वर्णा(र्ष) प्रा-
नुष्यै- २स्तर°, देवर्णक- सूक्त°
१वर्तकम्-> वर्तिका- १तिगिरि°
२वर्तक-, वर्तम्, वरुल-, वर्त्य,
वर्त्यमान- √र (परि) द.
*वर्धमानक- समतट°, वर्ध-
धिष्यत्- √र (परि) द.
वर्षस्- १गुह°, १हरि°, *वर्षिका°-
२क°, श्वर्ष- अर्ष°, प्रतीति°,
१आहृत्°, मर्षाधानादि°××, वर्षम्
√र (वषा) परि द, √वल्-
*वल्प अति°, श्व(व) ल->
वल्भिद्- उवृमिद्°, *वल्-
शत°, *विलज- अजल°
२वलय°- १गुहृ°, *२वलय- १वचन°
वलि, ली- अयुम्°, नि°, १वमर्°,
शत°, वलिन ना- सुवन्°, वलीन-
शाला°, *वलीक-प्रश्रव- सतत्°,
वल्क- *वलीक- वलविह°

a) देव १ द । b) अत्र लवणसकरो नेष्ट । c) पृ ८१५ अणुसेतुतडागमि > पन् द ।
d) कर्मावर्षं श्व । e) वनि स्थल शेष । f) अत्र १> १ द । g) = पक्षि-विशेष । h) = दृष्ट विशेष ।
i) पृ ११५४ दन्-> वनि द । j) अत्र १> १ द । k) = उच्चारप्रदेश, वा वर्षस्- वा ।
l) = १वर्ष- । m) पृ ११५४ वनि लवणसकरो द । n) = देव विशेष । o) = कृदि विशेष ।
p) = १वर्ष- ।

वल्क- १५९^०, १५७^०, १५०^०, १५३^०
 वल्कल- १कुठ^०, चौर^०, पक्षवत्^०,
 १५९^०, मत्स्यवत्^०, वेगुण्ण^०, ४९^०
 ✓वल्गु अति^०, आ^०, सम्^०, *वला-
 वल्मी- > १वल्मीक- १अ^०,
 आकृतिगोष्ठ^०, १न^०, भिन्न^०,
 महागुण^०, गुण^०, स्थाणु^०, *वल्मीक-
 राशि- शान्तफल^०, बरमीकवपा-
 रचित^०, २वरमीक- > वा-
 ल्मीक- आग्निवेश^०, वल्गुभ-
 च-२^०, गरिन्^०, वल्किल, लली-
 २-२^०, गुण^०, १गुण^०, दुम^०, १गुण^०
 *वल्दा- रात^०, लहस^०, ✓वल्ह
 उप^०, प्र^०, *वल्ह-^०, *वल्हव, ता-
 ✓वल्गु प्र^०, १वल्गु, वा- १अ^०, अन्व-
 र्वादि^०, अर्थ^०, ईद्वर^०, एकह^०××,
 वरांगम-^०, वल्गिन्^०, १वल्गु- १अ^०,
 *वल्गु-वा- गुणवत्^०, २वल्गु- १अ^०,
 १अज^०, गो^०, १वल्गु, वल्गिष्ठ->
 *वल्गिष्ठ- आग्निवेश^०, र्वादि^०
 वल्गु > २ ✓वल्गु > *वल्गु- १अ^०,
 *वार- १अ^०, आणु^०, आश्रावित^०,
 श्रोत्र^०××, *कृत- १अ^०, यथा^०
 ✓वल्स (वधा) अतिप्र^०, अति^०, अतु^०,
 आ^०, २उद^०, उप^०, नि^०, परि^०,
 प्रतिवत्^०, वि^०, विप्र^०, सम्^०, १उपित,
 वा^०- अहोरात्र^०, १एहारात्र^०,
 पृत्^०, पूर्व^०, सप्ततर^०, *१उद-
 उप्य, *उप्यमा (ग >)ण-
 *१उप्यवत्^०, *३वल्स- वल्सवत्,
 वल्सवत्, वल्सती-> *वीवरी->
 *वलिप्रहण- सवत्^०, *वल्सतीवलि-
 प्रहण- आग्नीवेश^०, *वल्सथ-
 *१वल्स-^०, *३वल्स-^०, *वल्सि

(त>)वा- *वल्सितुम्, *३वल्सु-
 पुरत^०, *वल्स-^०, *वल्सवै, *वल्सव्य-^०,
 *२वल्स-^०, *२व (स्य >)स्मा-
 अमा^०, १वास- वरस्य^०, उद^०,
 १उदक^०, वर्ग^०××, गसाग^० काश्री२५,
 ४, ३^०, *३वल्स-^०, *१वल्सवत्-
 *वल्सवित्-^०, *वल्सवित्पमाण-
 १वल्सित^०- लिप्त^०, १वल्सिन्- १अ^०,
 अन्ते^०, प्ररस्य^०, आचार्यगुल^०××,
 *वल्सिनी- १उद^०, १वल्सिनी^०,
 १वल्सु- १अ^०, नवरात्र^०, १वल्स^०,
 वल्सुविद्या-> *वल्सुविद्या
 (या अ)प्यवन्- अस्वप्रतिष्ठा^०,
 वल्सनोपनि-> *वल्स- मातृ
 नामन्^०, *१वल्स, १वल्स, स्वा-
 अमा^०, *वाल्समान-
 ✓वल्स (आच्छादने) अधि^०, अन्वा^०,
 अतु^०, अग्नि^०, नि^०, प्रति^०, वि^०, सम्^०,
 समग्नि^०, *२वल्स-^०- अहृत^०, १अर्थ^०,
 १कृत^०, १कृण^०××, १वल्स-^०,
 १वल्स^०-^०, वल्स- १अ^०, अन्तलाक^०
 व^०, अन्त^०, अहृत^०, १अर्थ^०,
 उष्णीष^०, १एक^०××, *वल्स (क्ष प्र)
 गुलेपन- श्वेत^०, वल्सालंकार- नव^०,
 ✓वल्सि, *वल्सण- सम्^०, वल्सो-
 त्तीय- नव^०, *१वल्स- स्नात^०,
 *वल्स^०- विष^०, २वल्स^०- अन्त^०,
 आणु^०, १एक^०, वल्स^०, *वल्सो
 (स-उ)पनहन- कृष्ण^०, *२वल्स-^०,
 *२वल्सवत्^०, १वल्स^०- अग्नि^०,
 अनाग्नि^०, अन्त^०, अन्तर^०××,
 *वल्स परिधान- प्रतिग्रह^०,
 *वल्स- १कृष्ण^०, श्रोत्र^०एक^०,
 १वल्स^०, *वल्ससा ह- वेदाद्येष्ट-

गुत^०, *२वल्सित-^०, *३वल्सिन्-
 १अग्नि^०, अहृत^०, *२वल्सवत्,
 २वल्सव- ऊर्ध्व^०, प्रथम^०, ✓वल्स
 (वधा) अग्नि^०, अतु^०, ३वल्स-
 गुल^०, सु^०, *३वल्स-^०, *२वल्स-
 ह^०, *३वल्सित-^०, ✓वल्स (वीवरी)
 अग्निवत्^०, वि^०, *२उपित-^०, *२उद,
 धा-^०, *उदि-^०, *२उपिपत्स- १वल्स-
 > वल्सियत्- व आषथी २३, २१,
 ३* [स- पाप^०], *वल्सियत्- धत्^०,
 वल्स- > *वल्स- पाप^०,
 *३वल्स- दोषा^०, प्रात^०, *३वल्स-
 *०गसाग-^०, *✓वल्स (कामे) वि^०
 *✓वल्स (छेदन), *०गसाग-^०,
 *३वल्स परि^०
 वल्सथ- १वल्स- ✓वल्स (वधा) परि द,
 वल्सन्त- १उत्तर^०, १श्रीप^०, पूर्व^०,
 शरद^०, सु^०, वल्सितक- १आषाढ^०,
 वल्स- ऊर्ध्व^०, १मधु^०, मनोदा^०
 ३वल्स-^०- प्रथ ✓वल्स (वधा) परि द,
 वल्सिष्ठ- अगस्त्य^०, अग्नि^०, आग्निवत्^०,
 अतु^०, १वल्सु, रात्रि^०, वल्सि-
 मिन्^०, गुण^०, वल्सिष्ठ- आग्निवत्^०,
 इहवत्^०, २वाङ्मण^०, वैश्वदेवोत्पि^०,
 वल्सिष्ठसर्प- अग्निवत्पुत्र^०
 २वल्सु- अन्त^०, अमा^०, *३^०, अवा^०,
 आ^०, आदि^०××, २रयो- गवा^०, १,
 ४४^०, १वल्सव- विप्लु^०, शक^०, ४९^०,
 १हरि^०, वल्सु- इन्द्र^०, वल्सुपरा-
 त्पात्रे^०, वल्सुनी- वल्सुणा^०,
 वल्सुर्ध्व- नं अथ २, १^०
 २वल्सु- प्रथ^०, मुनि^०, ३वल्सु-
 वल्स- वल्सवै, वल्सव्य- ✓वल्स
 (वधा) परि द, वल्सि- १दि^०

a) वैश्व दे द । b) वृ २१६१ यनि सव्यासकेत द । c) वृ २८६६ यनि वा वावदेत द ।
 d) अथ इ नेधम् । e) वृ २१६२ यनि सव्यासकेत द । f) वृ २१६३ यनि सव्यासकेत द । g) वृ
 २१६४ यनि सव्यासकेत द । h) = १वावत्- । i) वृ २१६५ यनि सव्यासकेत द । j) = ३वाव- ।
 k) अथ इ >] द । l) वृ वावा । m) यनि सव्य गोप ।

✓वृ(वरणे) परि. द.; *वारकि-
चिकित्^०; श्वारण- श्रित्तिरि^०
श्वारण- १२२^०, भेष^०, २५^०, वाजिन^०,
१२५^०, ४४^०; *वारवण^०- चर्मन्^०;
श्वारि- शक्ति^०, श्रमन्^०, १कुश^०,
कम्भ^०xx; वारित- ✓वृ(प्रतिपाते)
परि. द.

वारिधापयन्त- १५२७^०; वार्क-
खण्ड- गीतम^०; *वाचलेय-
२कुश^०; वार्ता- १३^०

*वार्ताकु- पिपली^०; वासंय-
(> *वासंयो- पा.) पाग ४, १, १७६

*वाधीणस- कुश^०, सङ्ग^०, श्रि-
तिरि^०; श्वार्य^०-; श्वार्य- ✓वृ
(प्रतिपाते) परि. द.; श्वाल- अक्षि^०,
१३४^०, २अक्षि^०, २उद्^०, ऊर्ध्व^०xx;
वालवान- ४४^०; *वाली-
खले^०; वालुक, का- श्वा^०,
करम्भ^०; *वालुकि- चिकित्^०

वालेय- १३^०, हलिग^०; ✓वाश्
अभि^०, २उद्^०, प्रति^०, तम्^०; *वा-
सिन्-; *वासिनी- २३६^०;
*वाश्य, वाश्यमान- १३^०, श्वारा-
श्रित्ति^०, वास- ✓वम्(आच्छा^०)
परि. द.; श्वारस- ✓वल्(दीप्ती)
परि. द.; *श्वारस उतोदिर^०
कौशु १०७, २१

श्वालन- ✓वम्(बधा.) परि. द.
श्वारसन- ✓वम्(आच्छादने) परि. द.
श्वारसन- ✓वल्(गन्धे) परि. द.
श्वारसन- ✓वल्(दीप्ती) परि. द.
श्वारसन- ✓वल्(छेदने) परि. द.
श्वारसयत्- ✓वम्(बधा.) परि. द.
श्वारसयत्- ✓वल्(आच्छादने)
परि. द.

वासयिष्यत्-, *व्यमाण- ✓वल्
(बधा.) परि. द.; श्वारस- ✓वल्
(गन्धे) परि. द.; वासस-
श्वारसित- ✓वल्(आच्छा^०) परि.
द.; श्वारसित- ✓वल्(गन्धे)
परि. द.; श्वारसिन्- ✓वल्
(आच्छा^०) परि. द.; वासिनी-
✓वल्(बधा.) परि. द.; वा(सि>)
सी- पाकार्य^०; श्वारस्य ✓वल्
(बधा.) परि. द.; श्वारस्य ✓वल्
(आच्छा^०) परि. द.; श्वारस्य ✓वल्
(छेदने) परि. द.; वास्यमान-
✓वल्(बधा.) परि. द.; वाह- प्र-
✓वल्(परि. द.; वि तेष्या^०

*विशत्- एोन^०, चतुर्^०, द्वा^०,
१पत्न^०; विशति- १३४२^०, जन^०,
१५४^०xx; शिविग- ४४^०; विशो-
दादशी^०; विशक- आहुति^०; विश-
तिक- ४४५५^०; विकतुत-
११लाघ^०; वैकङ्क- शान्दन्^०,
पालाश^०; वैकङ्कली- शमीली^०

*वि ✓वल् > श्वार- १३^०; विक-
र्ण- श्वारार-; विकर्ण- स्वयमा-
तृष्ण^०; विकर्मन्- रिपु^०; विकल-
अपिहित्य^०, नेत्र^०, रोग^०, श्ली^०

*वि ✓वाम् > वि-आहित- हिनाडु
...स्ता^०, वि ✓किन् > विधि
किन्ता- १३^०; वि ✓कल् >
विकरण- श्रम^०, आख्यापद^०;
विकर्तु^०- स्व^०; श्विकार- १३^०,
अति^०, अमीयोमीद^०, १३^०xx;
*श्विकार-पद- १३^०; श्विकारगम-
कल्^०; श्विकारिन्- २आगम^०;
*श्विकार्य- १३^०, श्विकृत, ता-
१३^०, अनापाद^०, श्वारि^०, १५४-

श्विकृत^०xx; श्विकृति- १कृति^०,
श्विकृती^०, प्रकृति^०, मुख^०, स्वभाव^०;
श्विकृत- अग्नि^०, प्रतिफल^०, प्राकृत^०,
२वर्ष^०, १वात^०, सत्य^०; श्विकृत्य-
वर्ण^०; श्विकृत्यमाण- निर्वर्णमान^०

वि ✓कृत् (छेदने) > विकर्त- गो^०;
विकर्तन- वर्णनापा^०; *वि-कर्मन्
सूक्त^०, *श्विक-कर्मन्- गो^०; वि ✓कृप्
> विकर्ष- १३^०, श्विकरवकार^०;
श्विकृष्ट, श्व- १३^०; वि ✓कृ(मिसेने)
> श्विकिर- अत्र^०, प्रकृतान्^०;
श्विकीर्ण- क्षीरोदशुक्तिपुटगर्भ^०

वि ✓कृत् > विकल्प- १३^०, अवन^०,
आतवन^०, आदि^०xx; विकल्पयत्-,
*वि-कृष्ट, हा- १३^०

वि ✓कृम् > विकर्म- १३^०, अक्षर^०,
आर्षविलोप^०, कर्म^०, त्रि^०, श्वार^०;
विकल्प- चल्^०; श्विकल्पदर्शन-
१३^०; वि ✓कृमी > विकल्प- कर्मि^०,
अरण्य^०, अविश्व^०, ऊर्णा^०, कर्^०,
क्षीर^०, क्षीरक्षारलक्ष^०xx; *श्विक-
यत्- पश्य^०; श्विकयिन्- १३४^०,
श्विकय^०, श्विकयन्, आदीपिधि...ल^०,
एकवर्ष^०xx; श्विकय- अरिक्म^०,
लक्षयैत^०; श्विकय- १३^०

वि ✓कृत् > *वि-किल- > *श्व
(स-अ)श- १३^०; श्विकृष्ट-दिर्गम^०,
१श्विकृष्ट^०; वि ✓श्वर > *श्विकार-
यत्- १३^०; वि ✓श्विप् > *श्वि-
क्षेप- ५हु^०, महत्^०; *श्वि/श्वस् >
श्वि-श्रोम- १३^०; *श्विभ्रुत्-,
श्विभ्रुत्- १३^०; वि ✓श्वया >
*श्वि-श्वयात्-, श्विश्वयात्-शोष-
१३^०; *श्वि-श्वयात्- चर्मविशोण^०;
*श्वि-श्वारित- > *श्व-शोष- १३^०

a) व्यप. 1 b) = वारवाच [इतव-]। c) = दोषपि-विशेषः। d) इ २२९३ वनि. संवदा-
संकेतः इ. 1 e) नाप. (मिथी-). म्यु. ३। < ✓वृ इति निगापतः (श्वामी २२, ३, ४०)। f) वडः! तोषार्थं
पं १, २२४३ इ. ६। g) = श्रित्तिरि-। h) इ २१९३ वनि. श्विकारसंकेतः इ. 1

वि/गण् > वि-गणन^० - संमानन^०,

*वि-माध्य- मुख, वि/गार्ह >

वि महित- अर्थ^०, सत्, वि/गा,

शब्दगात्र पाठ २ १६, १०, वि गुण-

> वैगुण्य- १ज^०, प्रपान^०, *विगुणा

(प ३)इ^० - १अ^०, वि/गृह,

ग्रह > "हात- सपत्", *विगृह-

पाद- अग्निमु न^०, विग्रह-

१अ^० अन्तावा^०, उकथ्य^०, १गुण^०,

पुरव, प्र^०xx, *वि-ग्रहण- उकथ्य^०,

विद्याहृ १द^०, १पञ्ज^०, विग्ना-

√विद् (परि) द

*वि/घट्ट > वि घट्टन- १कृता^०

√विष् ५त^०, २वद्, प्र, वि, ठम्,

*विक्त-, *विद्- सु^०, *विष्य,

*वेक- *विक्त्-, *वेचक-, *वेच-

न-, *वेचम्, *वेचयत्- वि/चक्ष

> क्षक- १अ^०, ३अ^०, तिथि^०,

वर्णकन, वि/चक्ष > विचार-

१अ^०, अग्रन^०, उद्योगिष्टोम^०xx,

*वि चारयत्- १अ^०, २विचारित-

वत्^०, विचार्यमाण- प्रमा^० त^०

*विचारिण^० - ५चित्र^०

वि/चल > *वि चाचलि^० - १अ^०,

*वि चाल- आधवरण^०, वर्ण^०

वि/चि > विचित- सु^०, *विचि-

तिद्- वेद^०, *वि चिति- उदस्^०

वि/चित् > *विच्येत्न- १अ^०

√विच्छ अति^०

वि/चिच्छद् > विच्छिन्ति- १अ^०,

-वर्ष^०, १दण्ड^०, २पा^०, धेम^०,

*विच्छिद्-, विच्छिद्य, *विच्छि-

न्दत्-, २दी- १अ^०, विच्छिद्,

आ- १अ^०, २रन^०, विच्छेद- १अ^०,

अग्नि^०, उकथ्य^०, उच्छ्वात^०, शत्रु-

सर्वेत्न^०xx, वि/च्यु > *वि-

च्यव^०-१अ^०, √विज् अण^०, अग्नि^०,

२उद्, सम^०, *वि (गन्) ग्ना-

*विजमान-, १वेग- १शार्द^०,

१जठ^०, मात^०, वाविद्, हव्य-

क यादि^०, वेजन-, वि/जन् >

मिज्जत्, ता- १अ^०, वि/जि >

विजय- २जय^०, देवसना^०, सूत^०,

समा^०, १समर^०, सर्वतम्^०, *वि-

जयमान-, विजिगीषा- १अ^०,

विजित- गोष्ठे^०, विजितिद्- १अ^०,

गोष्ठे^०, गोष्ठे^०, विजिति^०- छन्दस्^०

*विजु- शिरस्^०, *वि/जृम् >

*मिन्त- निष्ठीवित^०, वि/क्षा >

*वि ज्- अर्थ^०, विज्ञात, ता-

१अ^०, अग्निवेदिता^०, १लोक^०,

*वि ज्ञात्- १अ^०, विज्ञान- १अ^०,

१अनवयव^०, अग्निव^०, अन्वय^०xx,

*वि-ज्ञापन- आगामिन्त^०, विज्ञाय,

विज्ञेय- १अ^०, विद्- > वैद्व्यं-

उदधि^०, द्रुतवनक^०, १पञ्च^०, मुच्छा^०

विद्बराह- √विद् (परि) द

वितथ- १अ^०

वि/तन् > १वितान- दया^०

वि/तस् > १वितस्त^० - वितस्ति-

अज्ञा^०, १गुण^०, द्वि^०, *२वितस्त-

दि^०, विद्वतीय- २अअ^०, वि/वृद्

> विवृण्ण यत्, विवृण्णी- धेय^०

वि/वस् > *वि-व (स्त) स्ता-

१अअ^०

√वित्सु, वित्सव- अति^०

√विद् (लामे) १) अर्थि^०, अतुवि^०,

अ भ^०, आ^०, नि^०, परि^०, प्र^०, प्रति^०,

विनि^०, सम^०, १विद्- अग्नि^०,

१अअ^०, अथर्वद^०xx, *विद्-

अर्थ- १अ^०, विद्- वो^०,

गुणि^०, *विदक-, १विदद-

१अ^०, *२विदान- सु^०, विदित-

यवा^०, विदितर- १लोक^०, विदि-

त्वा १अ^०, विद्या- १अ^०, १अज्ञ^०,

अभिवज्ज^०, १असुर^०, आत्मद^०xx,

वैद्य- १अ^०, वशिष्ठ^०, विद्यानि^०,

विद्याभासवस- शाव् अअम् ८^०,

विद्वस्- १अ^०, अधीमान^०, अग्नि^०xx,

विद्वष्टर- १अ^०, १वेत्- यज्ञार्थतर^०,

२वेद- द् आधो १० ७, ११^० [२-

अथर्वशा^०, अथर्वत्, अधीत^०, अग्नि^०xx],

वैदिक- लौकिक, *वैदिकी- सर्व^०,

वेदपारग- अत्राक्षर^०, सुभाषण^०,

*वेद-यज्ञ- अक्षुण्ण^०, वेदविद्-

वेदविधि (त) ता- १अ^०, वेद-

मत- अरित^०, प्राजाप- वादि^०, वेद-

समाप्ति- सगुल^०, वेदज्ञ- पुराण^०,

१लोक^०, २वेद^०, वेदाध्याय-

५यावत्^०, वेदान- २वेद^०, वेदा-

दि^०, *वेदक-, १वेदन^०- १अ^०,

आयास^०, उचित^०, *२वेद-

वित्वा, *२वेदस्- नि^०, वेदित,

ता- वेदिन्- नक्षत्र^०, *१वेदि-

रथ^०, सर्व^०, *१वेद्य, वेद्य-

विदिता, √विद् (लामे), शिन्दव

आपथो १०, ११, ११, विदव पाठ

२, ६, २१ [६धि^०, गतु^०, अग्नि^०

आ^०, उण^०, निद्, परि^०, प्र^०, प्रति^०,

a) = ऋणादनिर्घातन- १ b) पणि पृ ७१४ ० द । c) पण । d) = रोग-भेद- १ e) वैप १ द । f) भाष, १ g) = विचिन्ति- १ h) पृ २२०५ यनि सख्यासकेत द । i) पा ७, १, ७ पठाम्, द । j) ना १ अक्षर व दृष्ट । पृ २२०७ यनि सख्यासकेत द । k) अक्षरि दृष्ट । l) पृ २२०८ विद्वनि > यनि द । m) यनि सख- घोष । n) पणि पृ २०५६ ० द । o) पृ २२१२ यनि सख्यासकेत द । p) = वेद- १ q) पणे, पृ २६९९ ६ द । r) पृ २९५७ ३ द ।

सम्^०, १विच, सा- -तृत्तम् आधौ
 १,९,५^० [च, सा- १जात^०, देह^०,
 पितृ^०, १चत^०, यदृ^०, १शश्वत्^०,
 रजस्^०, विद्या^०, ४स^०, १सन^०,
 लौभात्^०, ११९^०, स्वपितृ^०], विन्ति-
 *२विद्^०- २एकधन^०, १ओजस्^०,
 रुद्र^०, गो^०, १जन^०, ज्ञाति^०, तेजस्^०,
 प्रकृत^०, वरिवत्^०, १नसु^०, सुवद्^०, स्वद्^०,
 २विदत्- > *दश्य- > *दशिव^०,
 १विदान^०, *२विद्य, विन्द- गो^०,
 मित्र^०, १वसु^०, सर्व^०, विन्दत्- १अ^०,
 *विष्- विदत्^०, *विनिवान-,
 रवेत्^०, *धवेद-, *२वेदन- १अ^०,
 *आतवर्णा^०, गमं^०xx, *२वेदम्
 यावत्^०, *२वेदि(त् >)नी- गमं^०
 √विद् (सहाय्याम्) > विद्यमान,
 ना- १अ^०, लह^०, विद्व- √विद्
 (ज्ञान) परि द्र, *विद्व- सु^०,
 १विद्व- आर्द्रा^०पवि^०, वाह^०,
 रज्जु^०xx, १वेदल- धान्य^०, पक्षि^०,
 गाव^०, सू^०, २विद्व- १अ^०
 वि√वत् (उपधाये) > *वि-दासिन्-
 १अ^०, वि√दह > विदग्ध, गवा-
 १अ^०, वि, पक्षिवित^०, विदहत्-
 १अ^०, २विदान- √विद् (ज्ञाने)
 परि द्र, विदारी- १फलाश^०
 विदार्थ- > *विदार्थ- नाथ आश्र
 २, ३, ३^०, आश्र ४, १०, ३^०
 विदिश- दिश^०, विदीगय- क्वि-
 दीवि, वि√दुष् > विदुष्-
 > *दुष्पाथ- १अ^०, *वि-दोष-
 १अ^०, पया^०, *वि√दुह >
 वि शोह- १अ^०, २विदूर- १अ^०

२विदूर- > वैदूर्य- उरत्त^०
 विदेह- ३अशि^०, वैदेह- २कश^०,
 रगतत्^०, वैदेहक- आयोगव^०,
 रसुत्^०, १विद्य √विद् (ज्ञाने)
 परि, द्र, २विद्य √विद् (ज्ञाने)
 परि, द्र, वि√द्युत् > विद्युत्-
 अग्नि^०, उरत्त^०, १चत^०xx, विद्यु-
 रस्तनधिरनुवर्ष- २आकालिक^०
 वि√दुह > विद्व- राष्ट्र^०, सै-य^०
 विद्रुम- धौद^०, द्रुतवगक^०
 वि√द्विष् > *वि द्विषा- >
 विद्विषा वत्- १अ^०, विद्विषाण-
 १अ^०, उरत्त^०, *वि द्विष्ट- १लोक^०,
 विद्वेष- १अ^०, माससखा^०
 √वि व्यष्ट अति^०, अतिप्र^०, अनु^०,
 अनुप्र^०, अप^०, अग्नि^०, अय^०,
 आ^०, २उद्^०, नि^०, निद्र^०, निरा^०,
 प्र^०, प्रति^०, वि^०, सप्र^०, विह, द्या-
 १अ^०, अथिया^० कण्ठे^०, १नाम^०,
 शृन्^०, २स्वर^०, *विद्व-प्रजनन-
 द्विर्न^०, *विद्व शिद्व- तस्वर^०,
 *विष्- मर्मन्^०, शन^०, हृदया^०,
 *विधे, *विध्व, *विध-त्त- १वेधे^०-
 अष्टादश^०, मणिमुक्तादि^०, २सूची^०,
 *वेधी- सूचिप्रतोद^०, *वेधन-
 १कण्ठ^०, *वेधिन्- अर्धन^०, गमन^०,
 दृष्ट^०, शन्^०, *व्यघ (न >)नी^०-
 १हृत्^०, *व्याघ- १गोप^०, एण^०, *व्या-
 धित् - > *नी-, विधर्मन्-
 धर्मन्^०, विद्यवा- १अ^०, प्रधृत्^०,
 कृष्य^०, गो^०, *आप्रण^०, शेर^०,
 *वेधव्य- १अ^०, वि√घा >
 विधा- अनेक^०, अन्त^०, अन्त^०

१अष्टन्^०xx, १विधान- १अ^०,
 आतीपोम^०, अन्वाधेय^०, क्लृण्व्याय^०,
 अनारभ^०xx, विद्यानाथं- १अ^०,
 विद्यापक- १अ^०, केदावाप^०, १विधि-
 १अ^०, अक्षर^०, अग्निहोत्र^०, १अ^०,
 अयान^०, क्लृण्वन्^०xx, विवि(क्त)-
 क्षनुत्^०, विधिप्रतिषेध- आत्मनपदे-
 शशदि^०, विधेय- १अ^०, विहित, वा-
 १अ^०, अयवेत्^०, अविधि^०, आसन-
 योग^०xx
 वि√धुधु > विधुत्- ज्ञान^०, विधु-
 न्वत्- १अ^०, विधुर- १अ^०
 वि√धृ > विधारण- व्यञ्जन^०,
 विधृति- १अ^०, १दर्थ^०, दर्थि^०,
 प्रसार^०, *विधे १ आशौ ८, १३,
 १०, *१विधेनामन्^० आधौ
 ८, १३, १०^०, आधौ १०, १४, ६^०,
 १०, ६^०, आधौ १९^०, ७, ५३, २९,
 ४, ४, आधौ, *विधेम^० आधौ
 ८, १३, १०^०, वि√नम् > २वि-
 नल- अ-याल^०, विनाम- एरादेश^०
 वि√नम् (अर्थने) > विनसम-
 सरस्वती^०, विवह- १अ^०, विनास-
 १अ^०, आति^०, अरुधि^०, आशौध^०xx,
 *वेनाशिक- जन्मन्^०, विनाशन-
 १अ^०, ईश्वर^०, चित^०xx, विनासनी-
 वार्थ^०, सर्वरोग^०, विनासिन्- १अ^०,
 *विनासिनी- कर्मसिद्धि^०, चक्षुः-
 दि^०, पत्नी^०, टकावमुत्^०, रवेद^०,
 शर्वादमुत्^०
 विना पृथक्, विनाल- फलायु^०,
 १दधि^०, विनि/पत् > पाप-,
 *विनि-पातिन्- १अ^०

a) पागे वैप १, २९५५ इ द । b) मावे वर्तित चक्षुः । c) ५ २२१३ *वेधि->यति. द. ।
 d) ५ २२१४ यति सहासकेत द । e) वैप १ द । f) ५ २२१५ वैदूर्य-, गण ४, १०, ३ > यक यति द ।
 g) पागे ५ २२१४ ० द. । h) ५ २२१७ यति सहासकेतः द । i) नोपायं वैप १ द्विविधेनामन् दि. द. ।
 j) ५ २२१९ सत्य १विधि-> ०वे इति नेष्टम् । k) ५ १३९० वर्य नामन्-> ००मन् इति नेष्टम् ।
 १९५४-२-१०६

विनि/युज् > 'योग- १धर्म',
 पात्र°, मृत्पात्र°, विनिर्/गम् >
 'गन्त- समाप्त°, विनिर्/दृष्टि
 > 'दिष्ट- 'द्वेष- १अ°
 *वि निर्/मुच् > 'मुक्- सर्वपाप°
 *वि नि/विष् > 'विष्- राजन्°
 *वि नि/पूद् > 'पूद्- 'आश्रयी°
 'पूद्- सर्वपाप°, *वि-नि(त्) >
 'सृज्- गर्भ°, वि/नी >
 'पि नयन- जोष°, 'वि नापिन्-
 १अ°, विनीत- १अ°, सम्भृच्°
 *वि-नी(नि/द्) > 'नि-व(नि ष्)व-
 करण°, वि/नुद् > 'वि-नीद-
 १ए१°, 'विनीद°- , विघ्न-
 'विद् (राभे) परे इ , क्रिय
 (नि/ष्)स् (संपणे) > *वि-न्या
 (नि आ)स- तद्°, सप्तक१द°,
 २स्त्व°, 'विप् (वधा) >
 'विप्- > 'विपस् > 'विपद्
 क्ति°- १अ°, वेदमन्त्र°, विप्र-
 १अ°, आदित्य°, गो°, 'वेद°,
 वायु°, सु°, वि/पच् > 'विपक्-
 प्राज्ञोरस°, शङ्खुष्णी°, विपाक-
 क्षिप्र°, मांसलैक°, सप्तस्त्व°
 वि/पद् > 'विपादन- बालमा न्द°
 वि/पत् > 'पि पातन- स्नेह°
 वि/पद् > 'विपद्- अक्षयज्ञानि°,
 जन्मद्°, दिव्यानिर्द°
 *वि परा/णी > 'गणन- शक्ति°
 *वि-परि/णम् > 'णाम- कार्य°
 विपरि/हृ > 'इत- १अ°
 विपरी (रि/द्) > 'शीत- १अ°,
 अतिपद्°, काप त°××, *विप
 रीत-वपयव-करक- 'वपतन°,
 विपयव- १अ°, बाणद्°, अद्द्°,
 अदि°××, विपयं (रि/अ)स

(क्षेपणे) > विपदीस- १अ°,
 १अज्°, अणचार°, अभिप१°××,
 *विपदी (रि-आ) सन- रथ°
 *विपदी°- वपुस्, वि/वा (पाने)
 > विपीत- १पीत°
 वि/विप् > विविप्य १अ°
 १विपुल- विमल°, विपूर्व- १अ°,
 विप्र/रूप > 'कर्म- शर्म°,
 १काल°, प्रदान°, सनिर्कर्म°, 'हृष्ट-
 १अ°, सनिर्हृष्ट°, विप्र/कृ
 > विप्रकीर्ण- > *विप्रकीर्ण
 केस- 'व्यस्तसारध्यातुप°, विप्र
 'काम् > *विप्र-वमण- १अ°
 विप्रति/पद् > 'वक्ति- १अ°,
 २धर्म°, १श्राद्धण°, 'पृष्ठ,आ- १अ°,
 स्वयम्, विप्रति/विष् > 'विद्,
 वा- १अ°, पूर्व°, धुति° सु°, 'वेव-
 १अ°, १अद्°, ज्ञनसाद°, अर्ध°××
 *वि प्र/मुद् > 'विप्र-मोह- १अ°
 विप्र/युज् > *विप्र युज- १अ°,
 'योग- १अ°, हृष्ट°, प्राण°, विप्र
 'वस् (वधा) > 'वास- १अ°,
 २अर्ह°, विप्रोव्य १अ°
 वि/युप् > 'विगुप्- अन्तु°, तद्°
 वि/युज् > *वि-युजक- 'वेद°,
 वि/युज् (व) > 'वा- गणित°, *वि
 'काम् > 'वि का(वृ) > 'प्या-सर्वा-
 पवि°, वि/वाष् > *वि-वाष्क-
 १अ°, वि/भज् > 'विभक्त,
 का- १अ°, त्रेधा°, वितु°, १अम°,
 सु°, *विमरिक्त- १अ°, विभक्ति-
 १अ°, १हृष्टा, उपपद्°, उपपद्°××,
 विभक्ति/विमित- १अ°, *विमक्ति
 सन्निद्- वृषद्°, विभक्तवर्ध-
 पद्°, विमन्य १अ°, विभाण-
 १अ°, अस्तवृष्टिन्°, आरम्भ°,

१हृष्टु°××, विभाष्य- १अ°, स्तोत्र°
 वि/भाप् > विभाषा- सर्व°, विभा-
 पित- इवक्°, विभीतक-
 २अरुह°, निम्न°, पाठा°, इलेमा
 न्तक°, *वि/मुज् > विमुक्त-
 मुक्त°, *वि/मुज् (कौटिल्ये)
 > वि-मुज- १मूल°, वि/मू >
 विभव- १अ°, २शान्तम्°, *वि-
 मया(व-अ) नुरूप- वधा°, *विभ-
 विद्-, विभवद्- १अ°, *वि
 नाहित- १एवदेश°, तद्°, विभूति-
 तद्°, वि/भू > विभूतिव,
 ता- प्रतिहार°, मणिरत्न°, यशसाया-
 युष°××, वि/भृष् > *वि-
 भ्रान्ति- १अ°, तत्त्वं°, विभ्रष्ट-
 १अत्त्वं°, २वेद°, वि/भ्रम् >
 विभ्रम- देश°, रज्जु°, राष्°, विभ्रान-
 त- १अ°, १विमति- मासद्°
 विमद्- > वैमद्- २श्रीत्°
 वि/मन् > *वि नादि(त्) > 'ता-
 पति°, विमानस्- १अ°
 विम(ल) > 'ल- नाताश्च°, *विमल-
 तल- स्निग्ध°, वि/मा > विमा
 न- नन्मर्ष°, प्रासाद°, २वेदि°
 वि/मि > २विमित- २री'क्षित°,
 वेतु°, वि/मुच्, षच् >
 २विमुक्त- १अ°, १हृष्ट°, *वि-मु-
 (वि)ची- ज्यात°, विमुच्य,
 *वि मुच्यद्- १अ°, विमोक-
 अग्नि°, ध्वन°, तद्°, परिधि°,
 योग°, विमोक्ष- नद°, शरीर°,
 स्थानकरण°, *वि मोक्ष्य- योग°,
 शरीर°, विमोचन- १अ°, ध्वन°,
 उपायन°, कपाल°, बुन्दुभि°, रथ°,
 स्तोम°, विमोचनो- १पाठ° हृष्टु°
 वि/सृज् > विम जन- मुक्त°

०) पृ २२२२, २५ खं चपयामहत् इ । ०) पृ २२२८ अत रनि मोघ (दु वैप १) ।
 ८) = भोपवि वि.अ इति भोमादिभ्य ।

वि/मृद् > *वि-मर्दन- छेदन^०,
जोष्ट^०, वि/मृच् > विमृच्- >
वैमृच्- इन्द्र^०, पौष्णप्राप्त^०

वि/मुञ्ज > विमुञ्ज- क्रम^०, दम्भ^०,
ह^०, १विभोग- कर्मव^०, तद्^०, प्राण^०,
सोम^०, स्मृति^०, *विद्योमि(न् >)
नी- १अ^०, *वि/रच् > वि-
रचित- > *तो(त-उ) ऋषि- >
*विन्- कुनमण्ड^०

वि/रञ्ज्,ञ्ज् > १विराग- वित^०

वि/रम् > २विरम- १अ^०, निरग^०,

विरति-देश^०, *वि रम- अस्तसवरा^०,

विराम- १अ^०, आरम्भ^०, १रुच्^०,

शुभ्रभा^०xx, वि/राञ् >

विराञ्- अतिशङ्करी^०, अतुष्टु^०,

का^०, गो^०xx, वैराज- अक्षर^०,

इन्द्रस^०, गायत्र^०, नवत्^०xx,

विराटसपन्न- १अ^०, *विराड्-

वृहवी- उररिष्टात्^०, १विराज-

अन्त^०, वनतर्बहिष्^०, बहिष्^०

वि/रिच् > विरिक्- वा-त्^०,

*वि-रेक- वसन^०, वि/रु >

विराय- २विवा^०, विरत- विरिष

त्^०, वि/रुञ्ज > विरुञ्ज

१अ^०, वि/रुष् > विरुष्ट, द्वा-

१अ^०, अत्तन्^०, क्रियाकाल^०, २अम^०,

विरोध- १अ^०, अन्नगुण^०, अग्नि-

लेख्य^०, प्रवर्द्धन^०xx, विरोधिन्-

१अ^०, माध्यदिन^०, साध्या^०

वि/रुच् > वीरुष्- अणमार्त्त^०,

शोषधी^०, वि/रुह् > निरुह-

१अ^०, युष्^०, *वि रोह- १अ^०,

मुष्क^०, विरोहण- अणाररथुणा^०,

पैत्यमुष्क^०, द्वा^०, विरुचुष्क^०,

१रुष्णा^०, २विरुष्प- विरसा-

वित्र^०, वैरुष्- नौपस^०, २भात^०,

शाक्तर^०, शैत^०, वैरुष्प- अर्ध^०

विरोहित- जामालि^०, वेसेद्विष-

१गणशि^०, वि/रुल् >

विलाप- गाम्य^०, वि/रुम् >

विलिखत, वा- १अ^०, अत्यन्त^०,

दुत्त^०, मध्यम^०, *वि-रन्विन्द-

भोजन^०, वि/रिल्स् > *वि-लि-

खन- छेदन^०, वि/रिल्प् >

रिलेपन- चन्दनादि^०, वि/र्ली >

विलयन- > *विलयन-विष्णुकर-

मथित-प्रभृति- उद्बृत्तलेह^०,

विरीन- प्रण^०, सयम्^०, वि-

रुल्प् > विलोप- १अ^०,

छन्दोम^०xx, वि/रुल् > विल्ला-

प्रयत्न^०, विलोम-वापत्^०, विवक्षा-

रुच् (परि) द्र, वि/रुच् >

*वि-नाक- प्राप्^०, *वि-वाच^०-

१अ^०, विवाचन- त्वद्^०, पुरया

हावि^०, विवासा- सान्दिनी^०

वि/रुद् > *वि-रुद्विष्णु-

विवाद- १अ^०, वि/रुच् > वि

। वीरुष्- उद्^०, १उव^०, आरो^०,

गोसव^०, ४त्^०, विवर्तयिपत्-

प्यत्- √र (परि) द्र

वि/रुत्स (निवाते) > १विवा-

सन- कर्मविभोग^०, वि/रुत्स

(दीर्घो) > *रु(वि-उ)प-, *रुप-

उप^०, २रुपुष्ट,ष्ट- १अ^०, विच-

स्थत्- अग्नि^०, पञ्चम्य जित^०,

वि/रुह् > विवाह- १अ^० अवि^०,

ह-वा^०, गर्भाधान^०, चौकफर्न^०,

देवप्रतिष्ठा^०, पुनद्^०, भिन^०, १यत्^०,

भाद्^०, १स्व^०, मूढ- १अ^०

√विदास् आ, वि/रिष्, *वि-रि-

चन्ति^० बुदे २, १४, विरिष्ण

१अ^०, विवरु- १अ^०, अग्निहोत^०,

अर्ध^०, १नाम^०, तज्जातीव^०, वण

शेष^०, *वि-येचर- लिङ्, *वि-ने-

चम्, *चयत्- १अ^०, विविदान-

√विद् (लोभे) परि द्र, विविच-

दुष्कमुत्त^०, *वि-विच-जलचरपक्षि-

विहृत- तिगिर^०, *वि-विष पान-

३स्ततिक^०, वि/रु (आच्छादने)

> रिवर- > *रिवरा (र-आ)

इत राजजन्म- वीर्वाशुबाल^०,

*वि-रग- द्वार^०, १नासिग^०,

रिवार- सवार^०, विवृत्- ईपत्^०,

*विवृत्-वायन- प्रेक्ष्यताएव^०,

*विवृत् स्नान- उदधानोपेक्ष^०,

विवृति- रवद्^०, वि/रुच् >

*वि-वृत्त- वैशुन्य^०, विचर्चित,

वा- अथर्वन्^०, शोष^०, क्षीर^०, छिद्र-

प्रथि^०xx, वि/रुच् > विरुष्-

१अ^०, उमानपद्^०, वि/रुष् >

*वि-वर्धन- आपु रीति^०, १यत्^०,

*वि-वर्धनी- १यत्^०, विरुद्दि- १अ^०,

अक्षर^०, १उभय^०, तद्^०xx

वि/रु। रु ङ् > *वि-वर्धन-

वर्धन^०, *वि-वृत्- तद्^०

वि/रुये > विरयन- > *वि-व-

रनी^०- मीण^०, विवान- आरुन्दी^०,

मीण^०, व्यूत्- मत्तो रु^०

√विश् अतुष्^०, अतुष्^०, अन्ना^०,

अग्नि^०, अग्निनि^०, अग्निस्मृ^०,

अन्तुष्^०, भा^०, उद्^०, उषसम्^०,

नि^०, निद्^०, परि^०, पयुष्^०, प^०,

प्रतिनि^०, प्रतिस्त्रि^०, प्रतिस्मृ^०,

प्रतुष्^०, प्रा^०, विनि^०, विष्^०, संनि^०,

स्मृ^०, उना^०, सतुष्^०, स्र^०, वि-

विश्विष्णु- रिश- १यत्^०, १२१^०,

प्रदन्^०, २प्रादण^०, मोन्^०,

राजत्^०, विष्^०, यद्^०, वैश्व, १या-

a) क्त । b) वै २, ४०४ ङ् । c) ५ २२४५ ङ् । d) = विच्छेदः । e) आ परिच्छेद

उत्त. (पा ६, १, ४५) । ५ २२५१ । नेष्टम् । f) नाग, व्यप ।

१अ०, आद्रिम०, क्षत्रिय,सा०,
 प्राश्रणी०xx, वैदशस्तोम- गोरव०,
 विटकुल- पुत्र्यशु०, १विश- बर०,
 *विस्तव्-, *विश्रमा(न>)ता-,
 *विश्य, १विष्ट-, *१विहित्-,
 १वेस- ब्रति०, २केत०, १स०,
 वेदवा- पशु०, *वेतक-, *वेतन-,
 *वेद्य (त >)न्ती-, *वेदित्-,
 *वेदित्-, वेदगन्- कुम्भसरादि०,
 गोपुर०, बक्र०xx, *वेदम-कार्य-
 स्वाध्याय०, *वेदप, *वेदयमान,
 ना-, विद्यादा- निर्०
 *वि√शक्ति(<स)त् > ०दन-
 १अ०, विशम्प-> वैशम्पायन-
 क्लापरि०, जैमिनि०, सुमन्तु०, वि
 √शस् (हिंसा) > विशस्-
 १अ०, विशसन- परिश्रित०,
 परिष्, *वि शसम् १म्पर०,
 *वेतव्- १वत्, १विशाख,
 खा- १अ०, त्रि०, शाखा०, रवि-
 शाख- स्तन्, ३विशाखा-
 पत्रि०, पुनर्वसु०, रोहिणी०,
 स्वाति०, २वैशाख- रवैत्र
 विशारद- सर्वज्ञ०, सर्वविद्या,
 सरविन्ता, १विशाल- वीर्य
 शल०, वि√शिष् > विशिष्ट,
 डा- १अ०, तद्, तुहि २२,
 म्xx, विशिष्य १अ०, विशेष-
 १अ०, शत्रुनाकपालिह०, श्व०,
 अभिनोगxx, वैशेषिक- १सा-
 पारल०, *वैशेष्य- वर्ण०, *वि
 क्षेपो(प-उ)क- नित्, *वि-क्षेपक-
 वर्ण०, क्रिया, तद्, विशेषण-
 १अ०, अनुदात्त०, २अप्य०,

उपदेशxx, *वि क्षेपित- १अ०,
 विशेष्य- १अ०, विशेष्य०
 वि√शी > विशाय- १अ०,
 उत्पत्तिकाल०, विज्ञायिन्- १अ०
 वि√शुष् > विशुद्ध- सर्वग०,
 *विशुद्ध-धर्म- १अ०, विशुद्धि-
 ज्ञान०, विसोधन- १अ०
 वि√शुष् > *विशोष्य- १अ०
 वि√श्रु > रिशीर्ण- १अ०,
 २शुश्रु०, वि√श्रम् > *वि-
 श्रम्म- शायाम०, विश्रयण->
 वैश्रवण- १शिव०, *विश्राचिन्-
 भज०, विश्व- १शुद्धवत्,
 विश्वकर्मन्-> वैश्वकर्मण- सा-
 वित्र०, विश्वजन- आत्मन्,
 विश्वजित्- अभिजित्, चतु-
 विश०, ज्योतिष्टोम०, २सन०,
 सर्वजित्, रत्नसामन्, वैश्वजित्-
 १शुर्वर्थ०, विश्वज्योतिस- स्वयमा-
 लुणा०, विषदेव- इन्द्रा०, वैश्व-
 देव- धामेव०, २आयिन०,
 ऐन्द्रात्मxx, वैश्वदेवस्तुत्- अग्नि-
 ष्टुत्, वैश्वदेव्य- १व्य०, *विश्व-
 पत्नी-, *विश्व-वित्त- १अ०,
 विश्वसृज्-> वैश्वसृज- सावित्र०,
 विश्वानर- अग्नि०, वैश्वानर-आत्मा-
 वैश्व०, आश्वेय०, ४स०, २स्य०,
 वैश्वानरी- पथिहृत्, विश्वामित्र-
 आनचतुर्वीर०, भरद्वाज०, १वाम-
 देव०, शरित०, वैश्वामित्र- महद्,
 विश्वारसु- तुम्बुल०, विश्वेदेव-
 चन्द्र०, *विद्वज्ययस्- बन्धा०,
 २लम्बा०, √विष् उप०, निर्०,
 प्रति०, सम्, रविहृत्, *विष्य,

*विष्यत्-, *विष्यमाण-, १वैष्य-
 १अज्ञ०, उन्मत्, कपायवा श्,
 २रेवा०, प्रातद्, सिञ्चित्, विनीत०,
 सुदाम्बर०, सु०, १वैष्य-,
 *वैष्यक-, *वैष्यण-, *वैष्ट्-,
 *वैष्य, *२वैष्य- नि०
 विष्- १मूर्च्छ०, २रेश०, निम्बुत्,०,
 रेतन्, विह्वराह- लघुन०,
 शृगाल०, २२२०, *विह्वराह-
 मामकुपकुट-वानर-गो-मास-
 लघुन०, विम्बुत्- पयनक०
 १विष्- १अ०, अक्ष०, अक्षि०, अक्ष्,०,
 काष्ठ०, घट०, १पीत०, २प्राम०,
 २उजु०, २शख०
 *वि√प (<स)ष्, वि√पद्
 > *वि-पाद्- १जरा०,
 विपादिन्- १अ०, विपम,मा-
 १अ०, निचूत्, मुरिचू०, १सम्,
 स्वराड्, वैपम्य- कर्मण०, मह०,
 १पाक०, १सम०, *विपम-लक्ष्म-
 उदपानावेलथ०, चिपय- अन्,०,
 अपवाद०, अर्थपतिनक्षुत्, आचा-
 रित०, आत्पनेपद्xx, १विपाण-
 २कुण्ठ०, मज०, गोxx, वि√पि
 (ब-घने) > *वि पाविन्- १अ०
 वि√विष् उष् > विविष्ट- १अ०
 विषु, पू-> विषुच- अयन०,
 विषुवद्- अतिरात्र०, अभिजित्०,
 चतुर्विंश०, शरद्, वैषुवत-
 मन्मन्नाक्षरप०, विषुवत् (क)-,
 विष्वन्व्- १अ०, *विषुक्- त्रि०
 वि√पो > ३विपित- १समवा०
 वि√पक्रम् > विष्वक्म- २अक्ष०,
 पद्, वि प् √कृ (विक्षेपे) >

a) लु वैप १, २५५४ b द । b) अर्थ लु. वः । c) वैप १ निर्दिष्टयो समावेशः द ।
 d) पाठ ! विश्वामय-> य इति शेष (तु वैप १, २१२७ b) । e) वृ २२६५ +विष्य- (अन् >)
 पन्था-> यनि द । f) व्य । g) वृ २२७० यनि सख्यासते द । h) वैप १ द ।
 i) वा १२, २६ पराष्ट ३ ।

*वि-प्-कृ- विष्णु, विष्किर-
 नक्ष, प्रतु, + √विष्, विहित-
 भा, *धविष्ट- विधि, *धविष्ट-
 > विहाष्टपञ्चमणिभिन्नचिउष्टचि-
 द्रुववस्तिक- १३०, विष्टप-नि
 वि/ष्टम्, म् > विष्टम- >
 *विष्टम- कुल्लक, प्रतो, महत्
 *वि/ष्टभाय(< स्तम-), वि
 अस्तभायत् आधौ ४, ६, ११^१, (वि)
 अस्तभायत् दौश्री १३, २७ ११^१
 श्विष्टि- √विष् (परि) द
 *रविष्टि- नि, वि/ष्टु >
 विष्टार- १३०, नि, त्रिक,
 द्विक, पर्या, विष्टुति- अविष्टोम
 वि/ष्टु > विष्टर- अति, उभयतस्,
 १ए३, ४०, निष्टार-> रपदिक-
 सिद्धा, रविष्टा- स्व
 विष्णु- -गो मा २, १८, ४^० [०ण्य-
 आता, इन्द्रा, महत्, १यस्], वैष्णव-
 अनुपदिक, आश्रय, सारस्वता,
 सावित्र, विष्णुकम- पूर्णपान,
 स्वमप्रतिमोचन, वात्सल्य, प्रतो-
 पयन, विष्णुबलि- ऋतुसमन,
 गर्भापान, विष्णुसूक्त- पुरपदक,
 विष्णोव्रत- तम् शैश्रीश ६५
 विष्ण, विष्यत्- √विष् (परि) द
 वि/ष्यन्द् > विष्णन्द्-व- १३
 विष्यमाण- √विष्(परि), द, *वि-
 सं/युज् > विस-युक्त- एतत्प्रव
 *वि-सनाह- १भीत, *वि सम
 √आप् > रविस्त् लात- १३
 रविसनाह- , वि/स्त् >
 रविसर्ग- १आएड, गो, प्रहण,
 चतुर्थ, दसम्, वन्, सुष्टि,

मूनपुरीपरेतस्, रेतस्, वाद्, प्रत,
 दत्तादेशन, सावित्रप्रत, रविसर्ग-
 ४५, विसर्जन-आचमन, उर्यापान,
 उपाहरण, मूत्र, *वि-सर्जनी-
 प्रत, वैसर्जन- गखण, विसर्जनीय-
 ३३०, ऋत्वार, शर्व, *वि-
 स्रष्ट-> *वि-स्रष्ट-द्विकार- १३०,
 वि-स्रष्टाभि- तस्कर
 वि/स्वप् > विसर्पे- १३, *वि-
 सर्पिणी- ज्वाला
 नि.विस्त- १अपरिष्ठाव, नि, द्वि,
 वहु, वि/स्वत्, स्तृ (आच्छा) >
 विस्तार- १३०, दन्तोष्ठमिधि,
 २वेद, ४०, विस्तार- अषगाड,
 अष्टाष्टुलि, अष्टादशष्टुलि,
 आवाग, *विस्तार (र-आ)
 य(त) > वा- अष्टाष्टुलि,
 नष्टुष्टुलि, *विस्तारो (र-उ)
 र्द्वय- तव, विस्तीर्ण- मुख,
 विस्तृत- प्रादेव, वि/स्वप् >
 विस्तप-> *वैस्वप- प्रहायर्ष,
 *विस्वप्(एअ)थै- १३
 विस्कुलिङ्ग- ४०, वि/स्मि >
 विस्मित- १भीत, वि/स्वप् >
 *वि स्सन- मूत्र, विस्वप्
 १३०, विह-> विहङ्ग- अरिष्ट
 ...क, वि/हम् > विहन्-
 पूर्ण, स्व, विघात- १३०, तद्,
 निमित्त, विह- १३०, अथयन,
 महत्, विघा- विघाट, सर्व, वि
 हत- १आएड, शडा
 वि/ह्य > हीन ना- क्षमपान,
 आर्युजोम, शोडय, रक्षाल, *
 वि/ह्य > विह्य- १आएड, तन्वा,

विशिष्य, विष्य, १पाद, रवेरि,
 विहार- १३०, विहार- आपति,
 आहार, १उत्तर, परिमाह,
 १५०, *विहारि- विष्णदी
 .. न, विह्व- १३०, वि/ह्य >
 विह्व- १३०, वी(वि/ह्य) >
 १वीत- > *वीत रस- जति,
 व्यय- १३०, उवित, तदुपान,
 ए, ततानन, √वी अतु,
 अभि, अव, प्रा, उप, प्र, प्रति,
 *व्याह, *व(व्य) > उवा-
 *वी- १६५, ५६, २वी(त) >
 वा- १३०, १दार्, वीतह्व- >
 वैतह्व- गीह्व, वीति- १६५,
 २५, *वीय, *वीय- ५३,
 *वीयना(न)ना- *व्य(त) >
 ती- १३०, २वी- √व्ये(परि)
 द, वी(वि/ह्य) > वीह्य-
 उवा, वीचि- महाश्व, *वीचि-
 शत- पवन, + √वीह्य, वी-
 जय- उा, *वीजया > *र्षा
 √ह्य वा) पाप १, ४, ७४
 √वीह्य > वीह्य, वा- १३०
 वीणा- ३५०, मलायु, १आएड,
 २मा, २तम्बल, तालुक,
 रविजीन, महत्, १भु, १शु
 रवीत- √व्ये(परि) द, वीधि,
 धी- अन्तर, २अए, ग, ३,
 गो, नि, नाग, राज्
 रवीय/वी(परि) द
 रवीय/व्ये(परि) द
 वीर, रा- १३०, अभि, १आएड,
 १उअ, २द, २दार्, *वै-
 ह्य- १३०, *वैरि- १आएड,

१) उप अप् प्र । २) वेप १ द । ३) अर्षा: म् ५ । ४) पति वेप १, २१५० ११ द ।
 ५) २०१५ वस्य अस्तभायत् नेष्टम् । ६) पाठ २ विष्णो इति शेष (वृ साम्ये १, १२, ६ विष्णो इति पाठ
 ११ शी ५, २५, १० प्रवृत्ति) । ७) प्राव । ८) १ २२८० वनि वरपायका द । ९) वेप १ निशितो
 समावेच द । १०) भावे रवेरि च ए १ । ११) विष, नाग. (राशि) ।

*वीर-हरबा- १अ°, वीरहन्-
१अ°, खेन°°, वीरासन- १इण°,
स्वान°°, वीर्य- ३इण°, आत्त°,
२उकभ°××; वीर्यकाम- ३इणवर्च-
सकाम°; वीर्यवत्- १अ°

वीरण- १वृ°; वीरिण- १वृक°
*√वील्, वील्ह- अमिति°

√वृ (वरणे) वाचा. क्वा. आत्म-
संगती [अति°, अतिप्र°, ३नु°, अकु-
सम्°, अण°, आ°, प्र°]. २वर-
अनङ्ग°, अनाम्नात्, अवि°°, १एक°,
आडनरक्ष°, क्तु°, १गिरि°, जिता°,
१दान°××; *वरा(र-आ)काम-
देवलय°; ३वर- -३रे वंश ३. ४:
१३[°- वृह°], ३वरम- १अ°,
अर्थव°, उदात्त°, अतिवृ°,
१दान°××; *वरिष्वा; २वरेव्य-
१हरि°, *वर्ध- होतु°; *वर्षमाण-;
३वार- १पुण°; *वारक-,
३वर्ध°, वृणान-; १वृत्- १अ°,
अन्य°, १देव°, १र्ष°, मनु°, ३व°

√वृ (आच्छादने) अण°, अण°,
अधि°, अमि°, अमिनम्°, आ°,
परि°, प्र°, वि°, व्या°, सप्°,
समा°; *वृ- > वरोपस-
परम्°, ३वस- ३वरण-; वरप्र, प्रा-
३युग°, लु°. वरुत्-> वरुति-
लुष्का°; ३रुक्थ- कवच°, वितत°,
३र्मन°; वरं- १अ°; वर्मन्-
१अ°, अस्मन्°, आधुव्य°, चक्र°,
१वृकुल°, अन्नान्°, शर्मन्°. ४त°,
*वृवार-, *वर्ष°, *वर्षमाण-,
*वृवृणान-; *२वृत्- विष्णु°;
२वृण- अणवृ°; वृत्ति (वरा.)-

वि°, *१वृथ, *मियमाण-
√वृ(प्रतिपाते) अण°, अन्वा°, नि°,
संनि°; ५वरण-> ३घाण-१णमण°,
शामील°; *वर्तु-, *वृवार- सुद°;
प्रवारण- ३इण°; *वारधितुम्;
*वारिण- १अ°; *वर्कार्य-; √वृ
(ववा.)° नि°, वि°, ५वर- धारा°,
*व्यार- नी°, विद्व°

+√वृह्, वृह् २उद्°, परि°, प्र°,
वि°; वृहण-, वृह-, वृह-, वृह
३वृक- १अ°, व्याप्र°, सिह°
वृकजम्भ-> वाकंजम्भ- प्र(ल>)
त्मा°; ३वृकल- ता°

*वृककावती°- ३पुस°; वृक-
आ°, १वाहु°; *वृक्ति°- तमम्°, सु°,
१स्व°, ३वृक्ष- १अ°, अधि°, इना-
दिष्ट°, अनिदत°××; वाक्षं-अतसी°;
वृक्षनिर्वास- लङ्गण°, वृक्षमूल-
भित्त°; शृङ्गागर°; *वृक्ष-विषमा
(न-आ) रोद्धण- अमिमु°××°;
वृक्षसमास्य°; वृक्षाप्र- रजत्°°
वृक्षारोहण- उदपानावेषण°

*वृगल- पुरोडाश°, √वृच् ३ण°;
वृचण- २पशु°, स्वयम्°

√वृच्, वृष्टिण्य आपध्री २०, १६,
१२इण°. वृष्टिण्य द्विधौ १४, ३,
३६अ° [अतिप्र°, अतुप्र°, इण°,
अधि°, अण°, आ°, नि°, परा°,
परि°, परिध्या°, प्र°, नि°, व्यप°,
व्या°, सप्°, वर्ग- अकर°, अण-
नोतम°, १अष्टव°, इष्टि°××; *वर्ग-
परिग्रह- गथा°; *वर्ग-मध्यम-
दि°; *वर्ग-सूक्त- एष्टिण्य°, वर्ग-
*वर्ग- अस्त्रावाक्यमण°, अजावि-

वाराम् °°, कुलत्त°, किमि°, लङ्ग°,
पातक°, पातकान्...क°, १गिम्भ°,
प्रथम°××; वर्जन- उच्छिष्ट°, चा-
लवण°, धारल...स°, मास°, मेषुव°;
गर्जनीय- १अ°; वर्जम् अमिष्ट°;
अग्निहोत्र°××; वर्जवत्-; वर्जित,
ता- अग्रयावादि°, उचात्प्रह°, उपा-
तणम्°××; *वर्जित्- ईर्ष्यागौरव°,
धारललण°××; वर्ज्य- ३अ°, लोकात्
...ल°, १विपाण°, इकार°; वर्ज-;
वृजिन- १अ°; *वृजिने(न-इ)अव-
निर्दध°; *वृज्य-, *वृज्य-
मान, ना-, *वृजन्-, *वृजान-

√वृत् अति°, अतिप्र°, अतिवि°,
अधि°, अतु°, अतुपरि°,
अतुर्पा°, अतुप्र°, अन्तर्°, इन्-
त्या°, अन्वा°, अण°, अपर्वा°,
अपसम्°, अणा°, अमि°, अमिनि°,
अमिनिर्द्, अमिर्षवा°, अमिप्र°,
अमिसमा°, अम्यव°, अन्वा°,
अभ्युपा°, वा°, २उद्°, उदा°,
उण°, उपनि°, उपर्ष्या°, उपप्र°,
उपध्या°, उषा°, नि°, निर्द्, परा°,
परि°, पमा°, प्र°, प्रतिनि°, प्रति-
पर्ष्या°, प्रधि°, वि°, विमि°, विपरि°,
विपर्ष्या°, व्यति°, व्या°, संनि°,
सम्°, समा°, संप्र°; वर्त- चक्र°,
१वृष्टा°; *वर्षक-; वर्तन- तद्°,
यथा°, शीर्ष°, वर्तनि- १वृष्टा°,
गायत्र°, प्यादरन्°, सङ्कल°, द्विराण°;
*वर्षम् १हस्त°; वर्तमाण- १अ°,
प्र.वी°; *वर्तमान-त्य- १अ°;
वर्षयत्-, *वर्षयित (व्य>)
व्या-, वर्षयित्वा, *वर्षयिष्यत्-

a) वृ २२१२ सव्य -रस्य > यनि. ४. (वृ २७२२ d) । b) वृ २१०६, २२१२ यनि. संख्या-
संज्ञा: ४. । c) धा. भोवने दीप्ती यतो च श्रुतिः । d) ओपपि-भेद- इति सोमादित्यः । e) वैव ३ द. ।
f) अय ४ > यनि. ४. । g) पाभे. वैव ३, २११० b, c द. । h) वृ १५२५ परि √वृच् दत्यम सव्य.
योमो नेष्टी । तजसव इति टिप्पणमपि नेष्टम् । i) भावे कर्तारि ष कृत् ।

*वर्तयिष्यमाण- , *वर्तित- ,
 वर्तितव्य- , वर्तिन्- ३धोमुवन०,
 एवंवर्ष०, चक्र०xx, वर्तिनी-वांर०,
 वर्तुल- वर्ति०, वर्तन्- उत्तरोत्तर०,
 १कृष्ण०, चक्र०, प्रकृष्ट०, रथ०, दृष्ट०,
 *वर्त्म- , *पर्य- , *वर्त्य- , *वर्त्यमाण- ,
 *वर्त्यै- , *वर्त्यमान- , *वर्तुल
 (त >)ती- , *वित्तव्यिपत्- ,
 १वृत्- १प्रता०, १एव०, च२र०,
 त्रि०, द्वि०, १पञ्च०xx, *३वृत्-
 अधस०, कर्ष०, त्रि०, वृत्, सा-
 १अ०, १कृष्ण०, अक्षुष्टपर्यन्त०,
 कन्वाव०, अपसत्०xx, *वृत्त वा-
 १दृष्ट०, वृत्ति- १अ०, कृष्ण्य०,
 क्षतिपक०, अधिष्क०, गान्तर०xx,
 वार्त्तिक- पद०, वृत्ति (क)-
 उन्ठ०, कोठ०, सदृश०, *वृत्ति-
 क्षीण- १पुर्वर्थ०, वृत्त्यन्तर- शाली
 नयावावरादि०, *२वृत्त्य

२वृत्- √वृ (आच्छा) परि इ
 *वृत्तिन्- क्षेण०, १वृत्त्य √वृ
 (आच्छा) परि इ

वृत्- > *वृत्-पूर्व- आ०, वृत्तवृ-
 सतरति०, वार्त्तित- परोक्ष०

वृथा आचारान्त०, *वृथा-इतर-
 सपात्र पायसां (स अ)वृत्त प्राक्कुली
 देवा-य- १शालूक०, *वृथा प्रयत्नित-
 श्रेष्ठ २००, वृथामाल- जपलदत्त०

√वृष् अति०, अतिप्र०, अर्थि०,
 अर्थि०, भा०, २उद्, नि०, परि०
 प्र०, वि०, समू०, वर्धन- २रेष०
 धनहीमाभ्य०, १पिष्ट०xx, *वर्ध-
 नी- १दुल०, वर्धमान०- १अ०,
 अर्थि०, तिमिर०, *वर्धविवदय-
 २वृद्ध, वा- १अ०, अनाथ०,

हुमारी०, १दुल०xx, वादक- पा५,
 १, १३३०, *वादक्य- १वा०५००,
 वृद्धि- १अ०, अशोत्सर्ग०, १अ३०xx,
 *वृद्धि क्षय- स्वान०, *वृद्धि हास-
 कपाल०, *वृद्धिन्- चेम०, वृष्-
 कृष्णा, आहुती०, १कृत > ता०,
 ऋव०xx, वृषन्- , *वृषुत्- >
 वार्त्तिक- अभिषस्त०, वदर्य०,
 तस्त्र०, धन०, भारिन्, वृन्त
 (रमा)- १ताल०, १पलारा०,
 पलाशपर्या०, ४स०, वृन्ताक-
 स्वेत०, १वृन्द्- > वृन्तारक-
 गो०, √वृ मयश् अर्थि०, आ०,
 नि०, निर्, परि०, प्र०, वि०, समू०,
 वृत्तिक- गन्त्रिक०, *वृत्त्य,
 *वृत्त्यम्, *वृत्त्यक- , √वृष् अर्थि०,
 अर्थ०, आ०, २उद्, प्र०,
 ३वर्ष- १अ०, अचाल०, उपल०,
 पाहु०xx, *वर्ष तर्क्य- १अ०,
 *वर्षवितुश्च स्वानिव- २अचाल०,
 १वर्ष्या- आत०, वर्ष्य- अक्षर०
 मासरोचिष्ठ०, वर्ष्य, *वर्ष्य-
 प्राषण०- पत्तप्रयथन०, *वर्ष्य
 उपल०, वधिमपुष्टकीर०, मज्जा-
 रधिरे०, रवस०, १शैल०, वर्षा- १अ०,
 अर्थि०, वृष्, १धीम०xx,
 वर्षाहू- > वर्षाहू [हु] (तम्ब- ,
 वर्षाहू) २- द्रव्या आभ्र २ ५
 १० ३८, - १काम्य आभ्र १२९,
 २७, ७, द्विधौ २२, ६, १८, तेषां
 ३५ *वर्षिन्- अघात०, १काम्य०,
 *वर्षिनी- साक्षर० २वर्षुक्त-
 १अ०, वाट्टपाम०, *वृष- , १वृष-
 ध्यान्त०, १अव०, १कृष्ण०xx,
 √वृषाय भा० वृषाहरि- >

वर्षाहरि- इवामक्षर०, वृषोत्सर्ग-
 अतुप्रहिन्, वृषण- १एक०,
 प्रसृष्ट०, १वात०, १शकल०, शिस्ल०,
 ४७०, वृषन्- त्रि०, वृषन- उन्सृष्ट०,
 १छाया०, तिल०, द्विव०, गदिपक०,
 स्नातक०, वृष्ट- यु०, १वृष्टि-
 १अ०, अक्षरवापु०, निरप्र०xx,
 २वृष्टिकान- १अ०, *वृष्यमात्र-
 वृष् (व >) ली- > *लीपति-
 तस्त्र०, वृषाकपि- सुराति०,
 १वृष्णि- १अ०, वृष्णिय- २इद०,
 *वृष्णे श्लुका- गुग्युक्त०, वृष्ण-
 २इद०, २वृष्णि- १अन्धक०, ऋषि०
 वृद्ध- , वृष्ट √वृ (परि) इ
 √वे अर्थि०, आ०, प्र०, वि०, समू०,
 *वृत्, वा- अमा०, अमात्य०, अर्षित०,
 कृत०, रज्जु०, सूत्र०, *वृत् परप-
 यय०, *वृत्, कृत- त्या०, *वृत्तन-
 *वान- , *वृत्त- १तन्तु०, १काम्य०,
 *वृत्त- , वेक- प्रयु √निच्
 (परि) इ, येत १अ०, *वेणव-
 वर्मन्तर०, *वेणातट- कोकल०
 वेणि वी- त्र०, ३त०, १वेणु-
 अक्षर०, काष्ण०, २नल०, परा-
 भूत०, १भू०, ३वन०, सूत्र०,
 १वेणव- १अहु०, १वेणवद-
 प्लाव० * २००, वृष्णव- २२था-
 मारु०, *वृष्ण विदल- रज्जु०
 वेतस- २कृष्ण०, १पलाश०,
 १मयहृक०, १वेतस- १वर्णमय०,
 वतसनाभ्य- १मण्डूक०
 वेताल- > *वेताल- इवेउ २००
 वेन- माद्रीपि०, ५, मण्ड०, १वेणु,
 *वेन-दल- कृतक०
 ३वेद- वरि०, पवित्र०, १मुष्ण०,

a) वृ २३००, २३०१ यन्ति तस्मात्तच्छत इ । b) विर, नाप (जलक-तु-) । c) वृ पागम ।
 d) वृ सा अलुह उल । e) = वर्षा ह्य- । f) नव १ इ । g) वृ २३०८ वर्षाहू- , वर्षा (वी-आ) द्य-
 * १ नेटय । h) नाप (मिलित्) । i) = देव विभाग- ।

√वेदि > ३वेदयित्वा*
 ४वेद- √विद् (ज्ञाने) परि द्र
 वेदक- √विद् (ज्ञाने) परि द्र
 २वेदन- √विद् (ज्ञाने) परि द्र
 वेदना- अक्षि°, २अक्षि°, १वेदम्°
 २वेदम् √विद् (ज्ञाने) परि द्र
 २वेदयित्वा √विद् (ज्ञाने) परि द्र
 ३वेदस्- इ आषम २, १४, ३°,
 आय १ १५, ३°, गाय १ १०, ५°,
 हिग् २, ३, २°-सू- १एक°, १जात°,
 विद् २, ३, २°-सू- १वे स°-सर्वे°
 २वेदस्- √विद् (ज्ञाने) परि द्र
 २वेदि वी- १अ°, अयस्°, अयधि°,
 अतर°, २अतर°, आ°, १तरर°,
 ऊर्°, १एन°, १केवल°, जि°,
 १दक्षिण°, अज°, पत्त्रिम°, पूर्व°,
 प्राग्बध°, बहिस्°, मयदप°, मध्य°,
 महत्°, यथा°, रत्नान°, वेदिवृत्तीय-
 सौमिक°, वेदिश्रोणी- दक्षिश्रोतर°,
 *वेदादि आ१म्भम- अयण°
 २वेदिन्- √विद् (ज्ञाने) परि द्र.
 २वेदि (र.) नी- √विद् (ज्ञाने)
 परि द्र, २वेद्य-√विद् (ज्ञाने) परि
 द्र, २वेद्य √विद् (ज्ञाने) परि द्र.
 वेधन- प्रवृ √विप् (परि) द्र
 √वेन् अनु°
 √वेप् अभिप°, जप°, २उद्°, प्र°,
 रि°, *वेप- अक्षि°, वेपन- अक्षि°,
 १भय°, वेपमान-, वेपस्- गम्भीर°
 वेपला- १अ°, २अक°, अग्नि°,
 अग्निहोत्र°xx, वेराक- प्रवृ
 √विष् (परि) द्र, वेडस्-
 रि/रप् (द्विवा) परि द्र.
 वेदाित- प्रथ. √विद् (परि) द्र

वेपक-, वेपण- √विप् (परि) द्र
 √वेष्ट अनु°, अग्नि°, आ°, २उद्°,
 उप°, नि°, निद्°, परि°, प्र°,
 प्रति°, प्रतिनिर्°, वि°, तम्°,
 सप्र°, वेष्ट- दन्त°, *वेष्टक-
 १२शौ°, श्री°, वेष्टन- घृप°, *वेष्ट-
 मान-, वेष्टयित्वा, *वेष्टय्-,
 वेष्टि- अय ती प्र°, उप्प्रीप°xx,
 वेष्टय, *वेष्टा-, वेष्टृ-, वेव्य,
 २वेव्य- √विप् (परि) द्र, वेष्टत्-
 १उत्तर°, अयम°, पुष्प°, वै तु°°
 √वै अग्नि°, २उद्°, उप°, *वैवा
 (त.) वा-, *वैवाप्य, वैखानस-
 त्रैकुज°, त्रैलोक्य°, अष्टान्, वेण-
 आयोगव°, वैताल-वेताल-(परि)
 द्र, वेत्त्रिकी- √विद् (ज्ञाने) परि
 द्र, *वैदेशी- १अ°, २वैदेशक-
 अतृ°, चण्डाल°, अजगच्छ°°
 वैधव्य- विपवा- (परि) द्र
 वैनाशिक- वि/नश (अदरीने)
 परि द्र, वैयर्थ्य- व्यर्थ- (परि)
 द्र, वैशेष्य- वि/विष् (परि) द्र,
 *वौ° माश्री ५ २, ३, १०, १२,
 *व्यंसक- १अत्र, छात्र, १मधूर°,
 *व्यग्र- १अ°, व्यङ्ग, ज्ञा- १अ°,
 कुष्ठि°, कुपल°, मत्ता°
 √व्यच् तम्°, व्यचय- १अ°,
 १उद्°, १समुद्र°, *व्यरञ्ज
 (व्यधने) > व्यरञ्ज°, व्यरञ्जि
 (र.) नी- गो°, व्य (व/प्र)
 ङ्ङ > व्यफ, का- १अ°, अक्षर°,
 अति°, पद्° डु°, व्यकि- अक्षर°,
 *व्यकि-यचन-भाव- अभिधेय°,
 व्यञ्जव- १अ°, अक्षर°, अक्षर°

अत्रात°, अञ्जन°, अञ्ज°xx,
 व्यञ्जनादि- १सखि°, व्यञ्जनात्-
 १अ°, सयोगपूर्व°, *व्यति √रु
 > व्यति-कर- योनि°
 व्यति-कम् > *कम- १अ°, अतृ°,
 गुणमुख्य°xx, व्यतिक्रा(न्त >)
 ग्ना- वरी°, *व्यति-कामर- १अ°
 व्यति-चर > *व्यति चार- १अ°,
 व्यति-चि > *व्यति चि-
 अक्षर°, *रुं- १अ°, अन्वय°,
 इष्टा°, १इव्य°, मन्त्र°
 व्यति-पत् ङ्ङ > *पक्- १अ°,
 २व्यतिपत्त- १अ°, १उद्गुण°,
 २इष्टातुत्वार°, *व्यति-पजव-
 १अ°, *व्यति-पञ्जव- नामर°
 व्यति-ह > *हर- १अ°,
 *हार- २उक्थ°, वर्मर°, *हरम्
 १अ°, व्यती(ति/इ) > व्यत्य-
 अनु°, वरी°, वरीञ्चि नय°,
 विभक्ति°, *व्यत्यया(व-अ) प्रयो
 (य व) पञ्चन विकार- वरी°, व्यत्य
 (ति/अ) सू(शेषय), *अव्यत्यस्वत्
 निम् ३ ११ ११, व्यत्यास- अक्षर°,
 रवन्तरवृद्धी°, १लोप°, स्व्यादि°
 *व्यत्या √घा > *दध-
 १अ°, *व्य(वि-अ) रयू(ति/रु)
 ह (वितर्के) > *व्यरू(ति/रु) ह-
 १लोप°, √व्यथ् अति°, अर्प°,
 प्र°, वि°, *व्यधन- १अ°, १आव°,
 तद्°, व्यधमान- १अ°, *व्यधा-
 १अ°, इदय°, *व्यधि- १अ°, व्य-
 धित-, *व्यधिद्-, *व्यधिय-, *व्य-
 धिय, *व्यधियै, *व्यध्या- १अ°
 ज्यघनी- √विप् (परि) द्र.

अ) वृ २३१५ यनि सरवासभेत् द । ब) वृ २३१६ यनि सरवासभेत्. द । c) पाठे वैप २, २४
 आत्मा रु १४, १, ४, २१ टि द । d) वैप १ द. । e) =वैपद् इति सररुं टि । f) =पूर्व- ।
 <व्य (वि/अ) य इति अण. । g) इतिरु इत् । h) वृ ४१५ यनि. जेम् । i) गाय ।
 j) =व्यप- ।

व्य(वि/अ)न् > १३धातु- पाठ १,
 १६, ११० [०न- उदान०, प्राण०,
 १तमान०]; *व्य(वि-अ)न्-ईश
 माण-; व्यन्त- १अ०; *व्य-
 (वि-अ)न्तर- दू०, ४स०; व्यप
 √गम् > *व्यप-गम- अशौच०,
 आशौच०, तदाशौच०, पूर्वशौच०
 व्यप√दिश् > *देश- १अ०,
 २अपूर्व०, आहार०, १ऊच०xx; *व्य
 (वि-अ)प √रुह् > व्यप-रोपित-
 दानदानस्वान्त०; व्यप √वृञ्
 > व्यपवर्ग- > *व्यपवर्ग-नाति-;
 *व्यप-वृत्-१अ०, व्यपे(व/इ)>
 व्यपेत,या- आचमनोत्थान०, उप-
 र्ण०, १कृति०, १काल०, २दक्षिणा०,
 २साह०, मैथुन०; व्यपे(व/इ)ह् >
 *पेक्षा- २धर्म०, परस्पर०; व्यभि
 √चद् > *चार- धर्मकर्मव०; *वा-
 रिणी- प्रवर्ध०, गणिका०; *व्य
 (वि-अ)भि/हस्र > *हास- व्यु-
 पतोर०; व्य(वि/अ)म् > *व्याम-
 अर्थ०, द्वि०; व्यथ्- १अ०; *वैधर्म्य-
 मातरवर्ध०, *व्यर्थ-प्रायो (क-उ)
 पवेक्षण- स्वभित्तिप०; *व्य
 (वि-अ) घ √कृ (विक्षेपे) >
 व्यघ-विशद.>न्वी- १अ०; व्यघ
 √गृह् > *व्यघ गृहीत- तद्
 व्यघ √च्छिद् > *व्यघ-च्छिन्दव-;
 व्यघच्छिन्न-; व्यघच्छेद- १अ०
 व्यघ √धा > *धान- अकार०,
 *दित, वा- १अ०, १पर०,
 प्रतिपेध०, शिलि...म०; व्यघ
 √नी > *व्यघ- १अ०; *व्य
 (वि-अ)घ √हृत् > व्यघ-सर्ग-
 १धवड०; व्यघ √सो > *सात-
 योप०; *सत- १अ०; व्यघ √स्था

> *स्था- १अ०, २धर्म०, १पाद०,
 वेदवेदा...न्०, सत्य०; व्यघस्था-
 पूर्वपर०; *व्यघ-स्थान- अनुमान०,
 चातुर्वर्ध०, विभ्युपति०; *स्थित-
 पृथिव्यादि०, सु०; व्यघ √ह् >
 *हार- अति०, अतीत०, अवाप्त०,
 अतिष्ट०, १कितव०xx; *व्यघ-हा-
 रिन्- १अ०, मूठ०, व्यघा(व/अ)
 न् > *व्यघा(व-अ)नम् १अ०; व्यघ
 (व/इ) > व्यघवत्- १अ०;
 व्यघाव- १अ०, अकार०, १अङ्ग०,
 अतज्जातीय०xx; *व्यघा(व-अ)
 यत्- १अ०; व्यघेत- १अ०, अकार०,
 अन्यदेवत०, अवर्ण०xx; व्यघेत्य
 १अ०; *व्यघेयिन्- गज०; व्य
 (वि/अ)स् (क्षेपे) > *व्यस्-
 १अ०; व्यस्तन- वृष्ट०, राज...
 ए०; *व्यस्तन-क्षिपा- १अ०; *व्यस्त-
 निव- १अङ्गव०, राजन्०; व्यस्त-
 १अ०, समस्त०; व्यस्त- अपवर्ध-
 पुरव०, अर्थपुष्य०, चतुर्थ०, तदर्थ०,
 दशन०, दशपद०, दशमान०xx
 व्यघ √कुञ् > *कुञ्- १धूम०; व्यघ
 √कृ > *कृञ- १अङ्गव०, पुराण०,
 वैद्याकरण- १अ०, *वैद्याकरण-सञ्-
 चिन्- पाठ २, १, ५१०, *व्यघ
 (वि-अ) √क्षिप् > *क्षेप- २अ०
 व्यघ √ह्या > *ह्यात, वा- कृत्विता-
 रोहिणी०, निगर०, १वाङ्मय०,
 *ह्यात- चतुर्वर्ध०, पद०, २अव०
 व्यघ √घृ > *घ्राण- दिग्, विच्छिन्न०,
 विच्छिन्न०; *घ्राति- १अ०, व्याघ्र-
 अन्नइहृ०, १नर०, मृग०, १२अ०,
 शिद०, स्नात०, १वैद्या- २अ०,
 २मार्ग०
 व्यघ √विम् > *वेत्त- १मीवा०

रन्व०, नखरोमन्; व्याधि- अवि-
 ज्ञात०, उदर०, लुध्...xx; व्याधित-
 १अ०, १अतिधि०, १अङ्गव०,
 क्ली०; द्विर्नन्०, १रात०, स्त्री०;
 *व्याधु(वि-उ)पेक्षा- स्वभित्तिप०;
 व्याधिन्-; *नी- √विध् (परि.)
 द्र; २अयान- √व्ये (परि.) द्र.
 व्या(वि/अ)प् > वीप्सा-
 नित्य०, १तदण०, *व्यापक-तर्क०;
 व्याप्त, हा- १अ०, १अङ्गव०,
 दोषो...या०; व्याप्ति- यावत्०;
 *व्याप्य- सर्व०; व्या √पद् >
 *पति- १अ०, अन्त०, प्रधानद्रव्य०;
 *व्या-वद्- १धान०; *पत्न, ग्वा-
 १अ०, व्या √पृ > व्यापृ (त >)
 वा- १अ०, व्या √पचद्, यम् >
 *व्या-पचन- प्राण०; व्यावाम-
 अर्थ०, वि०, द्वि०; व्या [ड, ल]
 क-नादि०, गेहे० गोष्ठे०; *व्याल-
 म्ब- बहु०; व्या √पृत् > *व्या-
 वर्तन- अथा०; *वर्तमान-; *पुत्त-
 १अ०; *वृत्ति- १अ०, क्तु०
 व्या √स्था, व्या √हन् > *स्था-
 घात- १अ०, ऊन०, १सहा०;
 *स्था-घातुक-; *स्था-स्त- १अ०
 व्या √ह् > *हरत्- १अ०; *स्था-
 हारिन्- १अ०, अण०; *द्वि-
 अदि०, मनस्वती०, मन्व०, ४त०,
 सत्वर०; व्या √छे > *स्थाहाव-
 व्युत् √कम् > *व्युद-कमण-
 त्हरत्; व्युत् √सृज् > *व्युत्-
 मकार- १अ०; व्युदक- १अ०
 व्युद् √अस् (क्षेपे) > *व्युदस्व-
 (त >)न्वी- १अ०, *व्यु(वि-उ)प
 √जप् > व्युप-जाप- व्युगतोद्
 व्युप √रप् > *रम-क्रिया०

a) वृ २२२६ यनि. संख्यासंकेतः द्र । b) अत्र !j>i द्र. । c) देव र द्र. । d) तु. पाठन. ।
 e) =वमन- । f) वृ २२२६ यनि. तोषः । g) वृ २२२६ व्याहा > यनि. द्र. ।
 देव-२-१-००

स्युप्-स्युप- वि√वस् (दीर्घो) परि. द्र.
 स्यू (वि√क)इ (प्र.पणे) >स्यूह-
 १३°, अनादिष्ट°, १एक°, २चरख°x;
 स्यूहन- पुरीष°, २सुच°; स्यु
 (वि√श्र)ध् >स्यूह-स्यु°, प्रजा°;
 स्यूष्टि- द्विपत्°, विमक्ति°; √ध्वे
 अनुसम्°, अण°, अमि°, अमिसम्°,
 अण°, आ°, उण°, उणिसम्°, नि°,
 परि°, प्र°, प्रति°, प्रतिपरि°, वि°,
 सम्°; *२वी-; *२वीव- अणस्°.
 अर्ष°, वेत्र°; *२वीव, वीयमान-,
 *२व्यवत्-, *२व्यवत्-, *२व्यवान-,
 *व्याय-; *व्यायत्- १३°
 व्येनस्... १०°; √मज् अति°,
 अनु°, अनुप°, अनुसम्°, अण°,
 अमि°, अमिप्र°, आ°, उदा°, निद्°,
 परि°, प्र°, प्र-वा°, प्रसुदा°, विप°,
 व्यति°, सम्°, मज्(वसा.)- १अण°,
 १उठ°, सो°, उठवा°, वैद्य°, उठ°;
 मजव्-, मजि(त>)वा-, *मजि-
 व्यत्-, *मस्य; मजदा- जपन्°,
 *मान्-माज-, *माजह-, *माजम्;
 *माजिन्- १३°; √मज् >
 मण- १अण°, १अर्ष°, निद्°, ४ठ°
 मत्- १अण°, अमि°, अमिहोयो-
 निष्ट°, अमिहोयोच्छेप°, अमि°;
 मजिस्°x; माजिक- रणोदान°,
 गोरानिक°, मोदानिक°, *मज-म-
 १अण°; मजचर्षा- गर्भाधान°,
 मजचारिह- पौष्टरस्त्र°; *मज-म-
 कणवि... सु°, मजदुपा- गजमान°;
 *मजचर्षा-मिसं- शत्रुमेवमन°,
 मजविममे- धातारि°; मज-

विसर्जन- प्रयोपयन°; मत्स्य-
 १अण°; मवान- चोर्ष°, वदणान्त°;
 √मति अनु°; मज- इन्धन°;
 मजिन्- १अण°, १यति°; मतो-
 पायन- मन्वन्वाधान°, अन्वाधान°;
 मतोपेत- मत्स्य- १अण°

मदचम्, मस्क- √रस् (परि.) द्र.
 मात्य- १अण°, अनुलोम°, अन्तराल°,
 अमिउरत°, १एक°, प्रतिलोम°
 म्रियमाण- √वृ (आच्छा°)
 परि. द्र.; √म्रीह्, ल् >
 *म्रीह- ४ठ°, म्रीहि- १कृष्ण°,
 म्ण°, गौरसर्षा°, ३चिति°x;
 *म्रीहि-जाति- ३यण°, म्रीहियव-
 बहु°; *√म्लहृन्, म्लहृन् अमि°.
 √म्लि, म्लि° प्र°; *√म्लिप्
 निद्°

श

*शुद्- ३°; शश- ३°, उ°, ज°,
 ११°x; शकार- रेफ°; *शश'-
 शगिरे°; शेश- √शी(परि.)
 द.; *√शेष, शेषण- २उठ°
 √शंस, शस् (स्तौ) अति°,
 शन्°, अमि°, अमिनि°, अम्या°,
 अण°, आ°, उदा°, उणसम्°,
 उपा°, प्र°, वि°, सम्°; शंसठ-
 अण°, १उठ°, अमि°, उण्णीम्°,
 पक्षि°, शक°; शंसत्-; शंसनठ-
 १अण°, महरत°; शंसम् १उपाणु°,
 गायत्री°, जगती°, निविद्°; शंस-
 मान-, *शंसवत्-, *शंसयितुम्;
 *शंसा- कर्मन्°, संसित्-; *शंसिम्-

माल्याणत्°, होत्रा°; *शंसु-, *शंस्य°;
 *शंस- २उठकथ°; शस्त,ग-
 स्तायाम् आपथौ १३, १६, ४°
 [°श्व, श्व- १अण°, उतमादि°;
 कवि°, मेधादिन्°, वात्°]; *शस्तिस-
 १३°, सु°; शस्त- अन्तर्°,
 ३आण्य°, २उठकथ°, एकाहिक°x;
 *शस्तय; शस्त्य- अर्धर्ष°, कृह-
 रद्द°, ऐकाहिक°, गर्गत्रिराज°,
 गवामवन°, पच्छ°; परिनिर्°,
 योनि°; शस्यनाम-; *शाव-
 २उठकथ°; √शंस, शस्(हिंशाम्)
 अवि°, आ°, परि°, प्र°, वि°;
 *शंस- वृ°; *शंसन- उदर°;
 *शस्य-, *शस्यत्-, शसन्-;
 *शसम्, *शसित्-, शसन्-,
 *शसित- २शसवृ-; २शस-
 १अण°, अमि°, अणुष्टि°x;
 *शस-कोश-भूत-रक्षण- अण-
 यन्°; शसविविधित्-कर्मकार°;
 *शस्य, *शस्य-; शस-
 अप्रतिरथ°, नाना°, स्व°; √शस्
 आ°, २उठ°, उण°; *शस्- कष्ट°;
 शक,ना- १अण°, शिवण°; *शक्त-;
 शक्ति- १अण°, अति°, मह्य°x;
 *शक्नुवत्-, शक्य-; *शक्मान-
 १अण°; शक- जि°, द्वि°; शक्वरी-
 अति°, अतिशक्ती°, अतिशक्ती°x;
 शक्व- १अण°, अति°, अति-
 आगत°x; शक्वी- १अण°; शक
 (वप्रा.)- यथा°; शक- १अण°
 शक-> शकय-; शकयवत्सुख
 वाहिद्व-; शकट- क्षेत्र°

a) परेषो घञ् प्र । b) ५ २३३९ यनि. नेष्टम् । c) पा उ, ३, ३६ परामृष्टा द्र. । d) = १७- ।
 e) घञ् यनि. संख्यासंज्ञा: द्र. । f) वैव १, १२२x । द्र. । g) मीय् २, १, २२ परामृष्टा: द्र. । h) ५ २३४०
 यनि. सूर्यवत्संज्ञा: द्र. । i) छास्तायाम् इति पाठ. ३ यनि. गोषा: (य. सत्र. मै ४, ६, ६ द्विथी २, ४, ४० सातायाम्
 इति पाठे) । j) योर्ति इत् । k) माण., विप. । l) ५ २३५१ अत्र यनि. संख्या देवा । m) ५ २३५१
 *शक्वरी- > यनि. गोष. ।

२५°, १३६°, शूर्य°, स्फ्य°

२शकट-> शाकटयान- १काश्य°

शाकधूम- प्रमन्द°, १शमल-

अधिमन्वन°, १अरणि°, १इहा°xx,

*शम्य-शाखा- ऊर्ध्व°, २शकल-

> शाकल्य-ज्ञानन्ति°, वाह्वि°

व्याडि°, २शाकल-दोष°, शकुन-

१कृष्ण°, सु°, शाकुन- १अ°

शकुनि- अन्वर्ण°, २माल°, चतु-

ष्पाद्°xx, शकुन्त-फल°, शकुल-

पाठीन°, शकुत्- १अर्थ°, धान-

इह°, गो°, मृत्°, १तोहित°, उपभ°,

वृषारण°, शकुत्पिण्ड- आनहुह°,

*शकृद् रत्न-४त°, √शकृद् अति°,

आ°, शकृमान- १अङ्का- १अ°,

उपतारक°, १मनस्°, मैथुन°, वि°,

१विप°, २न°वेध°, १सिल्ला°, *शकृदा

प्रतिविधान- १पान°, शकृप-

१शकृकु- अस्थूल°, २उद्°, उदुन्वर°xx,

शकृकुपान-> *शकृकुपान-

ज्याल- दन्धनपायनाचमन°,

शकृकुपथ- अन्नपण°

१शकृ- उपल°, वनक°, ऊरुएड°xx,

*शकृ-पर्वन्त- रत्नधादि°, शकृ-

पुष्प- करवीर°, शकृपुष्पी-

१उल°, २शकृ- २हरित°,

शकृपान- नम् आणु ३, ६, ४°,

गण ४, १०, ३° [न- महल°]

√शाच् > शची- अन्तल°

√शाद् > १शङ- १अ°, उहङ°,

दिवरत्त°, १शाख्य-> *शाख्य

पत्- १अ°, १शाख्य- अतर°,

१वापसि°, तिल°, पारिभ्रङ्क°,

१शाग°- अमन्व°, कोविदार°,

धीम°, गन्ध°, त्रि°, १सदा°,

शानी- अर्ण°, शणाक- २शाकल°

शण्ड- अनु°, शण्डिल->

शाण्डिल्य- गौतम°, पानजल्प°,

वारक°, शाण्डिल्यायन- गौतम°

शत- १५°, अकार्य°, अक्षर°, अवर्ष°,

अनहुह°xx, शतकलु- १अदि°,

शतजय- पष्टपथिक°, शतद्वय-

१शापांज्य°, *शत पञ्चक-

गायत्री°, शतमान- अर्थ्य°, अष्टा-

विंशति°, पृथक्°, रजत°, १सुवर्ण°,

शतराज- देशनाम्°, शतवर्ष-

१अ°, शतवार- १र अत्र १२,

३९°, शत्रयवत्सर- साध्वानाम्°,

शतसाहस्र- अनेन°, शतिक-

अनु°, शतीदस- मन्त्रोक°

शत्रु- १अ° अजात°, इन्° पुन्मन्°,

सर्व°, √शद् अति°, अतु°, अतुवि°,

नितु°, परा°, प्र°, वि°, व्यय°, शत्र-

दुर्विण°, शात्रम- अतु°, १कृत°,

गर्भ°, फल°, शत्रु°, *शात्र

यन्त्री-, *शात्र्य, *शात्र्य, *शीय-

मान-, २शद्- उन°, सेन°,

१शत्रु°, शन-> अनेन°

राहु°, √शप् अति°, जपत्-

१अ°, शप- १अ°, १शप°,

शप्य-, शप- २शक्ति°, १शफ-

१अवत्°, अवान्तर°, १अरत°,

१अरत°xx, शफर-> *शफती-

उप°, २शुति°, १शवल- १शयान°,

स्वाय°, शैल°, १हरि°, शपली-

१शृणु°, √शब्द स्मृ°, शब्द-

१अ°, २अक्ष°, अक्षर°, अमि°,

१अप°xx, शब्द- १अ°, शब्द

कर्मन्-नातिकुं दे° अन्वृकिया-

*शब्द-दोष- १अ°, *शब्द पति-

मान- १एक°, *शब्द प्रादुर्भाव-

विभाषिक°, शब्दभर- ध्यातरेक°

शब्दसवा- १अ°, १शब्दार्थ-

शब्द°, √शब्दि अ भि°, *शब्दन-

वि°, *शब्दपत्- अमि°

√शम् अति°, अतु°, अमि°, उव°, ति°,

प्र°, रि°, व्यव°, अम्°, समन°, १शम-

१वास्तु°, शमन- उपात°, वाद्°,

दु रष्ट°, घृष्ट°, मन्तु°, रत्न°, २शमा°,

१वास्तु°, शमनी-, शमनपत्-,

*शमपित-, शमविधिष्य-, शम-

विद्या १अ°, शमिष्ठ->शामिष्ठ-

३आव्य°, आस्ताव°, आह्वननेति°,

उपशेष°, चात्वात्त°, सह°, शामि

उद्देश- ५शशब्द°, शमिस्तुशासन-

उपशेष°, शान्, न्वा- १अ°,

तिल°, २दान्त°, कु°, *शान्त मुख-

१एड°, १शान्ति- १अ°, १उतर°,

उद्गोमादि°xx, शान्तिगण-

विपलादि°, वृहद्°, लघु°, शान्त-

शं-पाप°, *शान्त्युदक विधि-लघु°,

*शाम्-, *शामन-, *शान्ति-

*शामयत्-, शाम्यमान-, शम्-

१अ°, शपोर्वादि- सुखवाड°,

शम्पु- देवापि°, १शम्- विरा°

२शाम-> १शमी-> शमीधान्य-

१अ°, हरितवर्ण°, ३शाम-

अव्यर्थ°, चर्द्°, द्वि°, १२२°

*शामक का- १चाते°, ३शमी°

२शमी- १अई°, रोविदार°,

वान्दन°, शचिति°, १शलाग°,

पादि°, शमीगर्भ- १अ°, १अरत-

त्य°, शमीगर्भ- १अ°, शमी-

मय- पण्डमय°, पैराय°, *शम्या-

शेष°, शम्यु- अरति°, १शम्या-

अनम्°, अतु°, अशक्ति°, धीरेव°,

पवित्र°, प्रतिदत्त°, रजत°, १सुवर्ण°,

१अव°, शम्याक- २शना°

a) पाठे पृ २४९५ अ इ । b) पृ २१५५ यनि सत्पासक इ । c) यनि सत्तु तोष । d) पृ २१५२ यनि सत्पासक इ । e) = प्रना विजय । f) = १५-शिशु ।

राजन्, *शापान-, *शा(स्त) >
 स्त- १शास्त्व- १, शास्त्र- १अ,
 अभ्यास- १अ, १अगत- १अ, १अ,
 *शास्त्र- १अ, *शास्त्र-दोष-
 लघु, *शास्त्र-निष्पत्ति-, शास्त्र-
 लक्षण- १अ, शास्त्रविहित,
 ता- सवर्णाङ्ग- १अ, *शास्त्र-हेतु-
 १अ, *शास्त्रा(स्त-अ)नुसार-
 यवा, *शास्त्र, १शिक्ष- १अ,
 पुत्र, यथा, विशेष, शौच, सति,
 *शिक्षि- १शिक्ष्य, १शिक्ष्य-
 १अ, आचार्य, आचार्यकनीपुत्र,
 शुभ, *शिक्ष्य-भार्या- १शिक्ष्य,
 *शिक्ष- १, *√शास्(हिंवायाम्),
 २शास्त्व- २शास्त्र, शिक्षासिपत्-
 वि, शास्- √शस्(शुक्ती)परि. द्र
 शिक्षापा- १चिति, शिक्षामार-
 तिमिर
 शिक्ष्य- इण्ड, लभयत, प्रथम-
 विप्रपादुण, मौञ्ज, अस्त, ४स
 √शिक्ष् टण, *शिक्षक- प्रथो-
 चारण, शिक्षा- भरद्वाज, वरु, ४स
 सर्व, शिक्षक- १, *शिक्ष्य
 शिक्षण- चतु, ५चित्र, १नील,
 शिक्षाविन्द- > शिक्षाविन्द- २शा-
 वास, शिक्षार- वि, शिक्षा-
 १अ, श्रित, श्रम, अनुदित, *शिक्षा
 शिक्षाण- गुण, *शिक्षा
 (सा-अ)त- अणआदि, शिक्षिन्-
 नित्य, *शिक्षिता- वारिता,
 शिक्षु- पाप ४, ३.१६२ [० सु-
 पिण्डी, वन्दुक]
 शिक्षिन्सम्, शिक्षित्व- १अ
 *शिक्षिता- वि, शिक्षामन्- >
 शिक्षामन् २शिक्षामन् मापी ५, १,

१, ५, शिति- > शितिवाद्-
 १एक, *शिति-वाल- शितिवाहु
 शित्य √शो (परि) द्र
 शिथिरा- १अ, शिथिल, ला-
 १अ, श्रुति, *शितन- १आ,
 शिपिविष्ट- १अ, शिप्र- सु,
 *शिश्र- ३चिति, १पलाश,
 *शिद्- १, *शिशिर- १आ,
 *शिशिर- १सुग, १सुव
 शिरस्- अंश, २अक्ष, अक्षि,
 १अक्ष, अक्षर, *शिर पाद-
 अनुद, शिरस्(-क)- १अ, श्रपा-
 वृत्, सङ्, *शिरस्- ४स,
 *शिशोन्धर- १देवद्वय, शिशोरु-
 अक्षि, शिरा- अक्ष, अक्षि,
 २सु, शिरीष- अणामान्,
 श्रुत, १पलाश, १श्री
 √शिल् > शिल्- उग्ल
 शिला- अणुण, चतु, १वात,
 तक्ष, रि, नौ, पुन, ४स
 मुद्, १शुल, १शुल- २इत्ता,
 गोपुर, नदी, *शिलचनकानन-
 ४स, *शिला (सा-प्र) कृति- >
 *शिलोष्ट- शान्तक, *शिला-
 शिवाल- कुम्भीपाक, शिलूप- >
 शिलूप- १गोप, शिल्प- नित्य,
 प्रात, महाक, विध्वजित, सङ्,
 सु, *शिल्व वादिन-सुव गीत-तालो
 (ल-उ) पजीविन्- तस्त्र,
 शिलिन्- १अ, *शिल्वो
 (ल-उ) पजीविन्- कुडाविन्,
 तस्त्र
 शिशय- १अ, श्रजन्, सदा,
 शैव- पाद, शिशु- >
 शैवय- सङ्, शिक्षासिपत्-

√शास् (हिंवायाम्) परि द्र
 शिक्षिर- हेमन्त, शिक्षिर- >
 शैशिर- शुभ, शोड, शिक्षि-
 वतु, *शिक्षी- १अ, शिक्षि-
 १गोपा, १चेट, १सुग, शिक्षि-
 > शैशव- शिक्षि, शिक्षि-
 १अक्ष, गृहीत, १चक्र, लघु,
 वि, विद, शिक्षयमान- √शो
 (परि) द्र, √शिष् > शिष् कति,
 अक्ष, २उद्, परि, पर्यव,
 ४स, प्रतिवि, वि, सपरि,
 शिष्न्- शिक्षि- १अ, अक्ष, अक्ष,
 उद्, प्रत्यक्ष, १सुत, १यत्,
 विनक्त, *शिष्टा(ष्ट अ)न्- सुम-
 यपाद त्त, *शिक्ष्य-, १शेष-
 १अ, अशिशोन्, अशिशोन्,
 १अनुद, *शेष-वरण- २शेष,
 शेष- चोदनाविधि, सर्व, शेष
 भाव- चोदना, *शेषसूत निर्देश-
 १अ, शेषवचन- लक्षण, शेष-
 विस्तारवचन- २अक्ष, *शेषा
 (प-प्र)वनप- लेपनिर्देश,
 *शेष(प-प्र)लेपन- अनाप्रात,
 *शेषो(प-उ)दक-वपाल, *शेष-
 *शेष- १, *शेषित-, *शेष्य
 शिष्टि- √शास् (परि) द्र
 √शी अक्षि, अक्षि, सु, आ,
 २उद्, उग, नि, निरक्षि,
 परि, प्रति, प्रपु, वि,
 स, *श्री- १अ, वा (वरा) १-
 अक्ष, १अक्ष, अणुण, अणु-
 २अक्ष, श्रुति, उताम, २अ,
 श्रा, १अ, श्रवण- १अ, अणु,
 आर्धश्रा, *श्रावणो- १अक्ष,
 श्रावण- १शिक्ष, श्रावण-

a) वृ २११० बनि लट्यावकेत द । b) वृ २१११ बनि लट्यावकेत द । c) नार. (द्रुगोदभेद-)
 d) बनि स्थल सोप । e) वेप २ द । f) = इव विशेष । g) = शि- । h) = शिर- । i) वृ २११५
 लट्यावकेत निर्देश द । शिक्षित्व इति वेदम् । j) कति कृत् ।

*रश्मिपिर- ४६°, शुभ- १२११°,
 २२२°, शुवि°नि°, सः४°, शुभिमिन्-
 सेन°, *शुभमायण- सोम°, शुक-
 २२७७°, १७°, शुक- २६५५°,
 १६५°, प्राय्°, शुक- २६- १५°,
 अरहीन°, अर्°, समिष्टस्त°,
 कमेप्य°xx; शीत्र- १५°, *शुभ-
 गुल्ब- वैरयातिरक°, *शुभ-समि-
 धान- पूर्वगन्ध°, *शुभ-रथ(श्री-
 ध) स्यक- १५°, *शुभ(६-भा)
 दि- द्वादशमकारि°, शुभान-
 आगेष्°°, *शुभ-पति- वृद्धा-
 निर°, *शुभ(६-भा) शुभवे(ट-ए)
 कयाप्या(सि-भा)वर्जिता- १५°,
 *शुभ(६-उ) च्येपण- लघुन°
 शु (न>)ना- √धि (परि)द
 शूर्य- १६°, लोभ°, शून्यालय-
 देवायतन°, इनयान°, शूर- गर्भ°,
 मेरे°, गोष्ठ°, १पिष्ठा°, विहारि°,
 युद्ध°, शूरसन- ४६°, शूर-
 १६५°, कर्तु°, चरस्थाली°, १वित्र°,
 पाण°, १२५२°, २५५°, युष्°
 शूल- १अयम्°, अरि°, १९२°,
 १उम्मी°xx, शूलगव- पन्तरि-
 यक°, √शु, शू (हिंता) कपि°,
 अमि°, अय°, नि°, परा°, प्र°, प्रति°,
 वि°, सम्°, शूर- १अद्वय°°,
 १६५°, २५७°, २५२°, २पाटा°,
 १विशाल°, २शुष्क°, शूरशू°,
 *शूरान- यु°, शीर्ष- १अ°,
 स्वयम्°, *श्रीर्षेण- अर्धविम्°,
 *श्रीर्षा(श्री-भा)प्र- १अ°, *श्रीर्ष-
 ड्प°, *श्रीर्षे, *श्रीर्षे- शूरशू°,
 *श्रीर्षत्, *श्रीर्षमाय- शूरत्-
 √शु, शु (धवण) प्राणा°, अर्°.

अभे°, कम्पा°, आ°, उ१°, उ१-
 गम्°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रत्ना°,
 वि°, सम्°, *शुभूषक- अलि°,
 शुभूषा- १अ°, कर्ण°, गुष्°,
 द्विजाति°, *शुभूषिन्- गुष्°,
 शुभूषु- अलि°, मातृपितृ°, अर्°
 *शुभयान- १अ°, १अयम्-
 १अ°, इनप्यावनिपात°, उदात्त°,
 १गुष्°xx, *अयण सूरसैन- शू-
 पयात्र°, धवणीय- १अ°, धव-
 उल्केम्°, उ१म्°, १वर्ष°, ५धित°xx,
 धवस्थ- > धविष्ठा- कुराभा°,
 गृपतिरत्°, रोहिणी°, *श्राव-
 १श्रावण°, *श्रावण, *श्रावपत्-
 *श्रावविन्, श्रावविष्णत्, *श्रा-
 विठ- १अ°, *श्राविन्- उल्केम्°,
 १वर्ष°, *श्राव्य, श्राव्य-
 ध्रुव- १वर्ष°, शीर्ष°, १दि°,
 राय°, यु°, हवन°, हान°,
 १ध्रुव- १अ°, अत्य°, जनात्°,
 तद्°xx, ध्रुवदेशनातिकर्म-
 *ध्रु-भूत- नित्यवत्°, ध्रुति-१अ°,
 अग्निदे° प°, अतिपति°, अथा-
 वाप°xx, ध्रुतिभूत- १अ°, *ध्रुति-
 भूषण- वदात्र°, ध्रुतिविप्रतिदे-
 १अ°, *ध्रुव, ध्रुवमाण- १अ°,
 ध्रुव- तदभिहित°, १श्रोत्र-
 १वक्षुष्°, नासिका°, वर°, मुक्त्°,
 २श्रोत्र-> १श्रोत्रिव- १अ°,
 अनाकार्य°, देशपति°, राजन्°,
 श्वेद°, कुशासन°, स्वशाया°
 √शु, श्रा(पाके) प्रा°, नि°, प्र°,
 सम्°, श्रु, श्रा- ता आपथी १२,
 १९, ५° [०४, ता- १अ°, आनपन्°,
 २शुष्क°, १वाहृपय°xx], अयण-

अ-वाहृय°, अश्वेय°, कवण°, धू-
 न°, निर्वी°, पयु°xx, धवणी-
 अग्निदेन°, अश्वदान°, *अप्य,
 धाणा- वृति°, १अत- १अ°,
 *धाविन्- आदृणीव°, तर्°
 शृगाल- नी°, २५२°, इस्°
 +√शृव्, शृवण- नि°, निस्°
 शृङ्ग- १अ°, १अय°, अन्तरा°xx,
 शृङ्गि- वृष्टि°, √शृप्,
 शार्पणित्- अर्°, *शृङ्ग- नि°
 +√शृ, शी (समिधं), शरीर्ष- आ°
 शेष- पर्ववत्°, शनत्°, शे(प्य>)
 प्या- १अत°, शेफ- शनत्°
 शेव, या- १अ°, शु°
 *शेवत्- गु°, शेवाल- उरधि°
 शेष- अन्त°, शेषण-, शेव-
 √रिप् (परि) द, शैवाल-
 रेण°, पट्ट°, पट्टविकट°, √शो
 आ°, नि°, सम्°, *शान-,
 शिव-, *शिव, शिसान-,
 *शिवमाल-, शोक- √शु
 (श्री) पर द, *शोक-
 रि°, √शोकि √शु (शोके)
 परि द, शोच-, शोकन-
 √शु (श्री)परि द, शोचिन्-
 √शु (शोके) परि द, शोके,
 गा-> शोमित- उ१रत°, २कव°,
 तर्°, पुरप°, १पृ°xx
 शोभित- प्रम् √शुप् (परि) द
 शोभयित्, शोभिष्- √शुम्
 (परि) द, शोभम् प्रम् √शुप्
 (परि) द, √श्च्युत् अत्य°, अति°,
 अर्°, आ°, प्र°, *श्च्यु- ध्रु°,
 १मधु°, श्चोव, +√श्च्यु°>
 श्च्युत- नस°, √श्च्युत्,

a) = द्विद-। b) कर्मणि क्त् प्र । c) भावाद्ये इत् । d) अत °र्षे-> वनि द ।
 e) वृ २४२५ यनि लक्ष्यान्कैर् द । f) सहव धित्वा इति धाम (६, १, २६) प्रम् पाये । g) वैप १ द ।
 h) = मुक्-। २) स्यु वैप १, १५१८। ३) । j) = √श्च्युत् ।

इच्युत्, *इच्युत्-भूत°, १मपु°
 √इच्युत् नि°, निच्°, इमशान-
 धाम°, देवतावतन°, देगावतन°xx,
 २इमशानावत- निपेसादि°
 इमशु- २रेच°, अटा°, १जात°, तद्°,
 रुढ°, इमशुवमैन्- १इल°, *इमशु-
 नख- रुढ°, *इमशु लोम नख-
 लुण°, इयापण- > *इयापणी- >
 *इयापणैव- वधि°, पैल°, इयवाम-
 पचित्र°, वृत्ती°, निदरण°, निपय°xx
 इयामाङ्- आभेद°, तन्त्°,
 विमद्युत्°, मेदत्°, इवत्°, १वेणु°,
 मीहि°, इममी°, प्रमय°°, तुगणि-
 तेजन°, इयामाङ्गात्र- गणक°
 इयाव- > *इयाव इ°- अभिनि-
 मुक्त°, इयावइत्- तुण्डाकिन्°,
 इयावइत्- पचित्र°, २रत्न°,
 दुयमैन्°, हिन्मि°, मम°,
 इयावाङ्- औशन°, गौरीवित°,
 निह्व°, इयेत,ता- नि°,
 *इयेता (त अक्ष >) ऋी- १अ°
 इयेन- कर्त्विङ्°, १नाक°, क्षिप्र°xx,
 *इयेनि°- दिवत्°, √इये
 अभि°, अत्°, नि°, प्रति°, जीन-
 *इयाव- *इयाव- इयेत- नौ
 पत्°, वारपन्तीय°, अ- > अ्रेवत्-
 कल्त्°, इहम्°, उल्लङ्घन°, निच्°,
 गद्°, सट्त्°, *अ्रेवत्- इवत्°, अ्रेव,
 छ- अवि°, १इह°, १देव°xx,
 अ्रेव- अने°, ज्ञाति°, √अ्रेव
 *अ्रेवित- वि°, अत् इ > अद्
 √अ > अद्धान- १अ°, अडा-
 १अ°, अहिता°, यवा°, *वीत°,
 आद्- १अ°, अण्कोदेश°,
 सम्नुदव°, २अक्षक°xx, आद्भवत्-

वारण्युत्°, धात्रसूक्तभोजन-
 माताशन°, *धायसूक्ता (र-म)घ-
 लुण्ण°, धादिक- अट्टाभ°
 √अथ् अथ् आ°, २उद्°, नि°, प्र°,
 वि°, *अथ- द्विम°, *अथ
 √अम् अभि°, आ°, उर्°, पारि°,
 प्रति°, नि°, धम- क-पञ्चन°,
 रोप°, ध्रम(ण >)भा- १इमार°,
 धामगङ्- > *आताहोम- अग्नि
 होद°, *धमम् र्वा°, धान्ज- १अ°,
 र्मैन्°, १वात्°, √अम्म् ि°
 अथवणा- रोहिणी°, धायन- नाप°,
 √आ, धाविन्- √य (पाके)
 परि इ, धाय- प्रम् √य(धन्वे)
 परि. इ.
 √अि अवि°, अविवि°, अन्द्°, अा°,
 अाा°, अभि°, अभिनि°, अभिसम्°,
 अभ्युद्°, अन्पुा°, आ°, २उद्°,
 उदा°, उा°, उपनि°, उपगम्°,
 उाा°, उपाधि°, नि°, परि°, प्र°,
 प्रति°, वि°, अ्वत्°, अ्वा°, सम्°,
 समा°, समुद्°, सपारि°, *अथ-
 १अथन-, *अथणी-, *अथत्-,
 अथमाण-, *अथितै, *अथिद्-,
 *अथिव्यत्-, आय-, *आवी-,
 *अिद्- ऋर्त्, १अिव- अन्त°,
 अ्रित्ति-, *अित्य, १धी°- १अ°,
 अग्नि°, वातुत्°, १कत्°xx, अीकाम-
 अत्रिव°, अीवृत्- अग्नि°, *अीव-
 माग-, अेण, गी- गम्°, प्रम-
 नवरत्न°, त्रि°, द्वि°
 √अि अी(पके) > अथवण- उत्तरो-
 तत्°, हिरण्य°, *अधी- धीर°,
 √अिप् अभि°, आ°, पया°, *अिप्-
 *अिव-, धुरय √य (अवण) परि

इ, धुरय- षेष्ठल°, सतासाहोव°,
 १सक°, शोणि,पी- २अक्ष°,
 अग्नि°, १उत्त°, उत्तरेदि°xx,
 इलङ्ग- पूर्वा°, १इत्त°, *इलङ्ग-
 गिट- आगुरी°; √इलङ्गि >
 *इलङ्गन°- २वरण°, √इलाप्
 > इलावा- १अ°, उरुवत्°, √इरिप्
 इन्ना°, अन्तद्°, अण°, आ°, उर्°,
 नि°, प्र°, वि°, सम्°, समा°, इरिप्-,
 इरिष्ट- दन्त°, प्राच्°, *इरिष्य,
 *इरिष्यमाण-, अेर-, *इरिष्य-
 *इरिष्यितम्-, अेरम्- २रेव°,
 दुप°, मूर्त्°, धामलि°, *इलेव
 *इली°- १अ°, इलेमातरु- २अरव°,
 निम्°, विभीदक°, विभीतक°
 नेउधमान्तक- ल्युन°, इलोक्-
 अत्°, १कन्°, तद्°, वि°, इ°,
 *इलोक्व°- सु°
 इलोन,णा- १अ°, पुट°
 √अच्च, *अच्चम(न >)वा- २उद्°
 इन्- अद्विज°, अन्त्°, इमेव°,
 १नाक°xx, सुनी- १देव°, *१अ-
 गोष्ठ°, *अ-काका(क-अ) पलीट-
 लुण्ण°, *इव-वृत्- २पाठ°, अण-
 च- २वत्°, धामाजंरुल्लसोमग्ये-
 *अ वृत्ति- मृगजीविन्°, धान-
 अद्विज°, १इवापव- १अव°, *नाय
 ट°, इयाधि- १गोवा°,
 अण्क°, अथ- १अ°
 अथुत्- आचार्य°, आचार्यपनोत्त°,
 अविन्°xx, अथ- विन्-अ°, अ-
 सुर्वे- आचार्यपनोत्त°
 √अवस् अभि°, अभिप°, जा°, २उद्°,
 उण°, नि°, निच्°, प्रति°, प्रतिवि°,
 वि°, *अव- अत्त्-, *अवत्-

a) पाठे इ २४३४ k द । b) उण. = २६. c) वैप २, २अ द । d) इ २४४३ गति
 सट्पासकेत द । e) इ १०१ कर्त्वाभिर्मर्शनदलक्ष्यत् > *इगनपृ इति द । f) = १थी. g) एवार्थे
 प्र । h) इ २४४९ प्रम- > गति द ।

*रस्व, धाम- र्पस्, धुस्, धा-
 स्नाद-हेन, *धासन, द्यस् ()
 *भस्, धुस्, *रथ-अप, मु, *
 स्वस्तन- > *धत्तनिङ- १५°
 *श्वसुर-उदेष्टृ कृ √ध्वि, *घृ
 (न>)ना- २३६°, *धित्-उद°
 √ध्वित् > ध्वित्- > धिश्वित्-
 दुग्डाशिन°, दुपर्मन्°, ध्येत, वा-
 १५°, अति°, १२°ण°, त्रि°, त्रिम्,
 मसुर°xx, *धेत-सफ- ४६°,
 *धेत संपप- शुस्तरति°

प

रप- १५°, १२°, १४°, २३°, ६°,
 पदास-अवर्ण°, ककार°xx, पा-च-
 *पो(प-उ)पवेदा- १५°, पण्ड-
 अतु°, धान°, रजराता°, *पण्डिले
 चाभ १६:१, पण्ड- १३°, अ-
 दोन°, वृचन्°, कुरडा°xx,
 पण्डक-पतित°, १पप्- अर्ध°,
 १अपन°, इवादि°, द्वि°, पट्क-
 चतुष्क°, तद्°, ४६°, पट्कपाल-
 २वृद्ध°, *पट्कारण- अतुमदिक°,
 *पट्प्रियाव-सव-तर-, पट्प्रिस-
 शार्पिक- आत्तयाताम्°, पट्प्रिति-
 का- पसदिका°, पट्प्रि- ४६°,
 पडल- १३°, पडरनि-> *पडर-
 नि-भात्र-त्र चव्यू १५, पडद-
 भा°, ननु°, घृष्ट°, ता-धानाम्°,
 पात्रदिक-> *पात्रदिकी- १५°
 *पड् १ण्ड-मुल°, पट्गव-१अप°,
 पडज- रूपमोत्थित°, पडभाग-
 १मुल°, पण्मास-> *पण्मास°-
 प्रति°, *पण्मास पर्य-त- मातादि°,
 पण्मास्य- अर्धमास°, १पटि-
 १अष्टन°, १पृक°, च३२°, ५तारा°xx

१पठ- मभात°, अर्ध°,
 ऐन्द्राप्र°xx; पठो- १अ°, अत्रा-
 णिन्°, अवपप°xx, पठार-त-
 १अ°; *पठ्या(ठ-भं)त- सुस्त-
 दुस्त°, पोटसन्->पोडरा-
 अति°, अर्ध°, कन°, कयम°, भाद्र°,
 पोडरी-अटमी°, वृतीया°, दृगमी°,
 पोडशिक, का- १अ°, १भा°, ४६°,
 पोडराक- तद्°, पोडरासामन्-
 नाना°, पोडरिन्- चरु°, द्वि°,
 १पप°, पोडरिसामन्- वृहत्°
 √पठिव्, पठीव् अभिनि°, नि°, ५°,
 धीवन- तुण्छेदन°, मृत्°,
 धीवित-, *धीविद्-, *धीव्य,
 *धेव-, *ध्वत्-, *ध्वन्-
 √पठ्(=√धिव्) निष्°

स

*स- १त्°, २स- अय°, ल°,
 १४°, १मिभ°, १ल°, १श°, सकार-
 १अ°, रसागन्°, लार्ण°,
 ओसार°xx, ससत्त्-°, ३स-
 १भात°, प्रभा°, धस- सर्व°
 ५स- √सर (परि) इ
 सं√यञ् > *सं यान-, सवाजन-
 पत्नी°, संयाज्य, ज्या- धाप्य°,
 सप्राभ°, मह°, समिष्टयत्स-
 ज्यवर°, सं√यम् > सपत, ता-
 इन्द्रिय°, बान्चु र्मन्°, वाबाहू
 दर°, वृ°, *सयता(त वा)मन्-
 १अ°, सयम- इन्द्रिय° १अत्र°,
 सयमन- इष्टका°, १के°, १अनय्°
 सं√या > सया- १समुद्र°
 सं√यु > सयवन- १धिव्, सयाव-
 कसर°, सयाव(क)- ३स्ववितक°,
 सयुक्त, वा- १अ°, अग्निदेवार्दि°

३आज्य°, ऊर्ध्वान°xx
 सं√युञ् > सयुक्त, का- १य°,
 अग्नि°, अग्निचित्वा°, १अर्ध°xx;
 सयुज्य १अ°, सयोग- १अ°,
 कृत्वात्रादिक°, अग्नि°, १अत्र°xx,
 संयोगपर-, सयोगपूर्- १अ°,
 १सयोगादि- १अ°, अतुपत्र°,
 आदि°, सयोगादिलोप- १लोप°,
 सयोगोप- १अ°, स४°, *सं यो-
 जङ- पत्नी°, *स-योजन- अतुष्टम्°,
 आशिल्°, कपाल°, चातुर्गाल°,
 दशमी°, पशु°, रसमान°, *सयो-
 जनी- अग्नि°, सं√रक्ष् > *स-
 रक्षा- रभृति°, *स√रण्,
 सम्° रण्यति कथा ८, ४४
 सं√रक्ष् > संरक्ष्- १हता°
 सं√राज् > स्राज्- राद् शोथी
 ६, १२, ११, स√रक्ष् > स्रोप-
 १अ°, ५व°, स्रोम°, *स√रक्ष् >
 म-रक्षन्- १अ°, सं√लोक् >
 सलोक्-> *किन्- १अ°
 संवत्सर-रन् शोथी १६, १, १, *र-
 १अ°, अति°, अतु°, अर्ध°,
 तरर°xx, सापसर- १अ°, गो°,
 त्रि°, द्य°, *सावसरी- अति°,
 सावसरिक-अधिगस्त°, त्रि°, गृह्य°,
 *सावसरीय- राजकर्मन्°, *सवसर-
 रोक्षित-, सवसरभृत्-, *सुविन्-,
 *सवःसरशृतो(त-उका >) ल-,
 *सवःकरो(र-उ)वित- १अ°
 सं√घृ > सघृद- आशुत°,
 इन्द्रमस्त°, उपदेश्य°, प्रथ°, वधा°
 सं√वन् > सवनन- विदेश्य°,
 *सवननी- पति°
 सं√वप् > सवपत्-> *संवपन्ती-
 १अ°, सवपन- निदेश्य°, *संवपन-

a) = सञ्जु-। b) के १ द। c) त्वाथे प्र। d) = २स-। e) स्र°घ-> यनि इ।
 f) एषा गाल १३, ४, १, १ सवसत्स्य उदुचम् इति पाठे।
 ३९४ ५-१०८

पात्री- पवित्र^०, संपावनान्त-
 उदाहरादि^०, सं√वह् > *रस
 बाह^०- १८ण^०, *सं वाहन- ३३३ह
 ष^०, समूह- १३^०, पाणि^०,
 १-५३^०, १संवाह^०, सवि
 √क्षा > सविज्ञा(त) > वा- १३^०,
 सविज्ञात- १३वृण^०, सं√विद्
 (लाभे) > *स वि(त) > जा-
 प्रदन^०, संविदा(न) > ना- १३^०
 संवि/भञ् > *भाव- १३-५^०,
 रिक्व^०, सं√विश् > संवेदन-
 १३^०, १आसन^०, ऋतु^०, भोजन^०,
 वावाता^०, संवेधिन्- अथ^०, जफ^०
 सं√वृ (आच्छादने) > सगर-
 विहार^०, *स वृत्- राजन्^०, संवृत,
 वा- १३^०, तारामण्डल^०, महद्वर्ष^०,
 विज्ञ^०, सु^०, *सवृत् रम्भ- गृह-
 गन्त्रप्रचार^०, सं√वृञ् > संवर्ग-
 राप्^०, वर्ण^०, सं√पृत् > स
 वर्ण- १३^०, पुरोडाश^०, *सवर्ष-
 मूल- १५^०, सवर्षमान- १३^०,
 *स वृष्- १३^०, १उद्दण्ड^०,
 *सा, सागृति- शब्द^०, संवयस
 √ह > *स-पर हादि- पतित^०
 सं√व्ये > सवीत- दर्भ(जु), *स
 व्यास- जल^०, सं√शास्, सव
 शास् क्रमा ७, १५^०, *स √शुचि
 > सत्तद्वय- १३^०
 सं√शास् > सदासन- सनीहार^०
 सं√शी > सवाप- १३^०, श्वापान
 ध्याय^०, शदि^०, १काल^०, जात्या-
 चार^० xx, स शक्ति- विवाहो
 दमज^०, *स √शुप् > सशुष्क-
 १३^०, सशोष- श्मु^०, सं√श्रु
 श्रु(भवेत्) > *स श्रवण- १३^०
 सधत्- श्क^०, *स श्राम् *स

ध्रावयत्- १३^०; सं√शो > १स-
 शित, ता- १३^०, मज्जन^०, सशित-
 यव- १३^०; २संशित-> *वा-
 शितय^०- विक्रित^०, सं√श्रि >
 सधय- अन्योन्गणु^०, शीर्ष^०,
 शेषात^०, १सधि^०, संशित, ता-
 १३-३^०, शस्त्रसूक्तार्थ^०, १३^०
 सं√श्रिप् > सश्रित- १३^०, शीर्ष^०,
 १शु^०
 *स √श्रिय > संश्रायिन्- उभयतए^०
 सं√सञ्, ष्च् > संसक, वा-
 १३^०, १इत^०, संसङ्- अधर^०
 सं√सद् > संसद्- आचार्य^०,
 श्राप^०, १वेव^०, देवराजवाज्राण^०, सु^०,
 स्वा^०, *स-साव^०- शी^०, ससावत-
 ण^०, सं√सिच् > ससिक-
 अश्लि^०, सं√सिष् > *स-
 सिद्दि- अश^०, १यज्ञ^०, *स तिष्-
 म(न) > ना- १३^०
 सं√सिच् > *स स्तु(त) > जा- १३^०
 सं√सु (अभिपद्ये) > संसव-
 १३^०, समानजनय^०, सोम^०, *स
 सवन- अज^०, सं√सु > स-
 सार-> *संसार-मोचन- गोश^०,
 *स सारय- रथ^०, *स सारयन्-
 १३^०, *सं सति- सार^०
 सं√सृज् > ससर्ग- १३^०, अग्नि^०,
 अन्वन्तर^० xx, ससर्ग- उवा^०,
 रदि^०, *स सृजन्, *स सृजमान-
 १३^०, ससृष्ट, धा- १३^०, अजलो-
 मन् प्रराश^० xx, ससृष्टिन्- १३^०
 सं√सृप् > ससर्ग- १३^०, सतिष्ठ^०,
 पतिष्ठस्य^०, शक्यउत्पन्न^० ससर्ग-
 २^०तन^०, सं√सृ > संसृज-
 पुन^०, ससृष्ट- अज^०, ससृष्ट-
 १३^०, शमि^०, अनात^०, १अन-

गत^० xx, *सस्कारी- हविष्^०, सस्कार-
 कर्मन्- २गुत^०, संस्कार्य- १३^०,
 संसृष्ट, ता- १३^०, पुन^०, मन् xx,
 संसृष्टय शु^०, सं√स्तु > संस्राव-
 १३^०, ऋदि^०, गो^०, १पर्म^० xx,
 *स-स्तवन- १३^०, *स-स्ताय-
 श्रवाय^०, श्रामन्^०, ऋदि^०, शु^०,
 प्रजापति^०, रात्रि^०, १उष्टि^०, संसृष्ट,
 वा- १३^०, ऋण^०, ऋषि^० xx, स-
 स्तुति- १३^०, १अर^०, र-
 वाहन^०, १दान^०, *सं√स्तुप् >
 सं-स्तोम- मद्याप्^०, सं√स्तु
 स्तु(आच्छा) > *सस्तर- पर्म^०,
 सतीर्थ- १३^०, सं√स्था
 > संस्था- जम् ० ध^०, संस्था-
 अहस्त^०, अग्निष्टोम^०, अग्नीषोमी^०,
 अनावाश्या^० xx, सस्थान- अनेक-
 विध^०, उदयस्तरादि^०, चक्र^०,
 १५^०, १पाद^०, सस्थापन- १३^०,
 तुलामा^० र्ण^०, सस्थाप्य १३^०,
 सस्थित, ता- १३^०, अज^०,
 शय्यजु सामन्^० xx, सस्थिवहोम-
 पुरस्तादोम^०, सं√श्रुन् >
 ससर्ग- १आजन्, उर^०, तद्-
 द्यम्, १दशैन् xx, ससर्ग-
 ससर्गयत्- १३^०, *स-स्थादि-
 शरीर^०, ससृष्टयत्- १३^०, ससृष्ट,
 धा- १३^०, ऋदि^०, शनी^० xx
 सं√स्यन्द् > *स स्यन्मान-
 ०-द्वयत्- १३^०, संस्यूत- सं√सिच्
 (परि) द्र, सं√सु > संस्य-
 प्रवरशी^०, शुक्राम्ना-अन्^०, सविन्^०,
 सस्य-गर्म^०, सन्विद्, सं√स्यद्
 > *स स्याद- १३^०, सं√ह्व >
 सहव, ता- १३^०, स्युशुक्ल^०,
 पुरस्तादोम^०, शुभ^०, सद्योर्ण^०,

०) क्तिरि ह्यत् । ०) पृ २५०३ वनि सव्यासकृत द्र । ०) अयत्-शायिथ यन् प्र । ०) वीथ १ द्र ।
 ०) वि, नाप । वि, पञ्जे उप अण्वत्तम् । ०) पृ २५०६ 'वा ४, १, ००' नेष्टम् ।

*सं हनन्- पुनर्°, सघ-
 ३अलि°, आद्युपधीविन°, उत्पात°,
 टरसा°xx, सपात- अहम्°, उच-
 मध्यम°, वट°xx, सामाधिक-
 जम्मन्°, संपात(क)- रतेधम्°,
 *स-अवत्- १अ°, सं√हा(वागे)
 > *सं हान- १अ°, सं√हृ> स-
 हरण- १लोमन्°, सहरिष्यत्- १अ°,
 भदास्- अप्याव°, आत°, जाति°,
 पुग्मायुष्°, विहार°, समृति°,
 सृष्टि°, सहायिगिर संधिसंतनि-
 सहाय,र्वा- १अ°, सं√हृष्य>
 *सहृष्ट-पर्वन्परवृत्ति°, ससकुलृत्ति°,
 पु°, सं√ह्राद् > *स-डाद-
 उदधि°प°, घृष्टपालयधं°, *स-
 दादधत्- १अ°, *सं√ह्राद् >
 सहादयत्- १अ°, *स-कण्टक-
 निम्न°, *स°कर- पागम १५६
 संक(ला)>ल- १अ°, साकृत्प-
 कर्मन्°, विगच्छि°, सकाम- १अ°
 सकाश- १अ°, अग्नि°, आग्नी-
 प्रीव°xx, सकृत् १अ°, *सकृत्-
 प्रहरण- श्रदगादान°, सकृदाचि-
 त्त- उत्सुक°, चरुयाली°, सक्तु-
 रअहत°, अश्वन्°, अनामार्ग°,
 कृष्°xx, सक्थन्- दुष्°
 सक्षिथ- १अ°, अश्व°, अन्तु°,
 २अपर°xx, सक्थी- २उद्°
 *स(क)>आ- १अ°, संस्रि-
 खी-१अ°, २अरमद्°, आचार्य°xx,
 *सख- इत्र°, हृद°, तद्°, १वेव°,
 १भूरि°, सख्य- १देव°, १दौर°,
 तद्°, पाव्°, सख्यविसर्जन- २प-
 प्राशन°, सखिल- २ेडुअ°
 सगति- सर्व°, *स°गन्ध-
 पागम १५६, सगोत्र,प्रा- १अ°,

अमुक°, आत्रेय°, १रा२४५, पितृ°,
 भारद्वाज°, १सजी°, संस्रष्ट-
 योनि°, संस्रर- १अ°
 सं√काग् > १सकाय,सा- ३अन्°,
 उद्°, उजलिताशार°xx
 सं√कुल् > सकुल, ला- १अ°,
 व्याधि°, संकुसुक- श्व°, सं√कु
 >सकृति- अत्रि°, अप्रेव°,
 रस्य°, रकृति°, गायत्री°
 सं√कृप > संकर्ष- १सल°
 सं√कृ (विधेये) > ३सकर- श्लु-
 वन्प°, अदृत°, अपात्र°, कर्मन्°,
 गुरु°, ग्राम°, चातुर्वर्ण्य°, १वर्ण°,
 योनि°, वर्ण°, व्यनहार°, १धिष्ण°,
 शुक्°, ३सरर°, *सकर(र-अ)मध्य-
 तद्वर्ण°, सक्ती/कृ> *वीकरण-
 १उत्°, *संफरी-करण-कर्मन्-
 १कृ°, सक्तीर्ण- आहारमन्°,
 योनिमकर°, सं√कृप > सं-
 कृत्- कृत्त°, पाप°, वत°, १खिप°,
 *सकल्पन- अश्व°, सकल्पयत् -,
 सकल्पित- १अ°, *स कृत्त-
 १अ°, प्रेत°, सं√कर्म > सक्रम-
 प्रतिमा°, (वि°), सक्रमय-आदिव°,
 स्थान°, *सक्रमणी- १अ°, *स
 क्रान्त- द्वि°, सक्रान्ति- द्वि°, वि-
 लिकरण°, *सं√क्रिन्द् > स-
 क्रिद्ध- पूर्व°, *सं√स्रि > सं-
 स्रार- १इडा°, इशानाद्, सं√स्रत्
 > संस्रालन-बोहल°, पात्र°, वासी°,
 स्वाली°, सं√स्रि(अवे)> संस्रय-
 कोशवाहन°, १अव°, दोष° मश°,
 १वाहन°, सं√स्रुम् > *स-स्रुम्-
 पाणि°, *सं√स्राद् > दत्-, व
 १अ°, संस्रव्य-> साकृपाय-
 युवस°, संस्रय- संस्रव्य°

सं√स्रया > संस्रव्य, °स्रया- १अ°,
 १अश्व°, अश्वर°, अनुवाच°xx,
 संस्रव्य(वप्रा) - पद्°, दृष्टि°, संस्रवा-
 दि-, *स्रव्या-परिमाण(सु-अ)
 श्वादि- १अ°, *संस्रया(स्रया-अ)
 यवव- कश्चि°, *स्रया विदोप-
 प पावा २, १, १, संस्रयात, ता-
 १अ°, अहस्°, सरयान- १अ°,
 सान्वृति°, १दुर्ब°xx, संस्रय-
 १अ°, सं√गच्छ, गम्, सम्
 (गच्छान्) वाशी १७, १७, १°,
 आपथी २, २१, १, द्विशी २, ५,
 ४७ सम् (गच्छेव) वाशी १७,
 १७, १°, सगद्य- १अ°, १कुल°,
 चतुर°, १नासिष्य°, *संसात-करण-
 देवृत्ता°, सगति- १अ°, सग°,
 सगम- भेन वा ३, ५^१ [म-
 श्लुदात°, गजासागर°, त्रि°xx],
 संगमन- शतु°, सं√सृ(अवे)>
 सगर- सत्ता°, सं√सृ, प्रहृ> स-
 गृहीत, सा- मध्य°, समहृ- १अ°,
 उमवहेतु°, दार°xx, संस्रहृप- अवे-
 अश्व°, केशकेवि°, ततसाभार°, दार°,
 १लो°, समहोव- धत°, क्षु°,
 ३आत्र°, सं√ने> संनीत- रजो°
 संग्राम- २सृ°, शृणुतन्°, महत्°
 संघनत्- सं√हव (परि) इ
 संस्र, संस्र् अतु°, अण°, अग्नि°,
 आ°, उण°, प°, अन्तु°, *संस्रणि°
 आपम १, १, १, वीच १, १,
 १४, *संस्रव्-, °की- १अ°,
 *साव्- राति°, *सावि- हृत्°,
 *साविद्- अन्तर°, √सञ्,
 अज्ञे अग्नि°, अतिप्र°, अश्व°,
 अद्°, अग्नि°, अन्त्या°, अण°, आ°,
 २उद्°, उण°, उणा°, वि°, प्र°, प्रति°,

a) पु २४८७ *सतिन्->पान इ । b) =स- । c) उप =र । d) वेन १६ ।
 e) पत्नि, प्रान्य गोप । f) श-नमेव इति शेष । g) कृतिरि कृत् ।

प्रत्यभि°, वि°, व्यति°, सम°, समा°,
 सक,का- १अ°, वण्ट°, कृषि°,
 १तन्मूल°, द-३°, सवि-, रसद-
 २अक्ष°, कर्मुल°, गभे°xx, *सङ्घि
 (न>)नी°-पद्°, *सङ्घय°, *सज्-
 *सज्जन्°, *सज्जय°, *सज्जय-
 मा(न>)मा- १अ°, सज्जन्-
 सजानीय- विहवीय°, २विहवीय°
 रसजात- १अ°, सज्जुप- २अ°
 ✓सज्जु ३अ°, २°, *सज्जमान- १अ°
 *सज्जपुर°- सोसत°
 सं✓चर् > सच- १अ°, ३अर्थ्यु°,
 आलु°, १ने३°, दधिणा°, २दीक्षित°,
 १५नन्°, विहृ°, १गलु°, वज्रमान°,
 विहरिवत°, *स-चार- १अ°, अर्थ°,
 रेणु°, ७श्री°, *स-चारण- १अ°,
 अहृत्°, सचारिन्- उद्त्°
 स✓चि(जयने) > सचय- अस्थि°,
 वनवनकरजत°, धानवधन°xx, *स
 चव वत्- १अ°, सचयन-अस्थि°,
 सचित- पूर्वा°, ६°
 सं✓छद् > *स छादन- प्रह°
 स✓छिद् > *स-छिन्द्- १अ°
 सं✓जन् > सजात, छा- पवन-
 धोम°, पूर्वा°, सतापह्वर°, स✓जि
 > सज्य- इ-रस्य°, गौश्रुत°, विधा-
 निरस्य°, स✓क्षा > *सज्जयन्°
 उपेयव°, सज्जयन्- १अकाम°,
 १अध°, १गु°, पुस्य°, सज्जयन्-
 १अ°, १मक्ष°, १सञ्ज्ञा- १अ°,
 १यत्°, १अर्दन°, *अध्यास°, अनु-
 नासिन्°xx, *सज्ज- गयुधसर्ग°,
 १धेय°, धोयवत्°, सज्ज(क)-
 अमोक्षयमोक्ष्य°, अरतान°, अधि
 नी>नि°, उत्तरापार°xx, *सशि
 का- भावा°, *सजा चाण- १अ°,

संज्ञिद्- विभक्ति°, १धरा°,
 सजात- १अ°, सजान- १इस्त°
 सणक- रसावक°, सण्ड°- प्राम°
 सत्- > सतः > सजोदृढी-
 उष्णिहृ°, १पटुम्°, पथ्याचुरती°,
 वृहती°, महत्°, *सतो-मुत्त-महत्°,
 सव,√ह > *सव-कार- १दान°,
 *सव-कृत- कपविक्रम°, साप्य°,
 सधिया- अग्नि°, धाद्धादि°, स्वयम्°,
 सत्तम- ऋषि°, वनि°, द्विव°, मुनि°,
 सत्ता- त्रि°, द्वि°, सत्त्व- १अ°,
 श्रदीन°, अन्व°xx, *सत्त्व-वचन-
 १अ°, सदाचार- धृति°, *सद्-
 भाव- १शु°°, सतीर्थ- १विद्य°
 सत्य- १अ°, इप्रामिद्°, अर्थ°xx,
 सत्यकास- > सात्यकामि- छट-
 मर्षण°, सत्यदूत- > *सायदूत-
 > *यानाहविस- विभि°. यौधेी
 १२, ११ १°, सत्यक- >
 सायश्नि- छटमर्षण°, सत्यन्-
 अग्नि°, १उत्तर°, २°, ✓सद्-
 साद्वक्षौ १, १२, १५° [अधिति°,
 अभा°, अतु°, अतु°, अ-ना°,
 अय°, अग्नि°, अग्निभि°, अग्निस्तु°,
 अ-भा°, अ-भुत्°, अ-ना°, आ°,
 आनि°, २उद्°, उ१°, उ२वि°,
 उ३ा°, नि°, परि°, परिनि°, २°
 प्रति°, प्रत्ता°, वि°, व्या°, व्युद्°,
 सनि°, समु°, समा°, समुद्°, समुप°,
 लय°, सत- १अ°, *सति-,
 २सत्- १अ°, अर्थ्य्या°, अङ्गीन-
 रात्रि°, एकाह°, इण्डपायिनाम्°xx,
 सतिन्- १२० सजोव्यात- १अ°,
 *सस्तु-, स-स्वव्-, सद्- अग्नि,
 अग्र्य°, अ-तरिद्य°, २अरत्°xx,
 १सद्- १अ°, १पर्थ°, उदन्

> ना°, *रसद, दा- पु°,
 सदन- १अता°, १देव°, विहृ°,
 पहिगु°, अतद्°, महेद°, यजमान°,
 होतु°, *सज्जिन्- १कृत°, *सदम्,
 सदस-अन्द्°, पिण्य°°, २°, बहिष्°,
 शाता°, १हविर्षान°°, *सदस-
 अन्द्°, पहिगु°, सदस्य- १अ°,
 असदस्य°, चमताप्यु°, होत्र°,
 सजोविशोय- अष्टादद्°, सदोहवि
 धान- रेवेदि°, ४त°, *सदि-
 पथिन्°, *सदे, सद्य- उभिद-
 वोरनद°, ऊर्वा°, तज्ज°, २°, १पुर°,
 सूत्र°, *सद्य, *सद्वन्-, *सद्वर-,
 सद्य- १अ°, पद्°, तन्वतर- स्वे-
 रितपर°, *साद्- १दधिण°, साद-
 १अध°, गो°, पुरि°, सज्जन्°,
 *सादक-, १सादन- २अम्,
 २सादन- १अ°, ३थाप्य°, २था
 व्यायन°xx, *सादय, *सादयव्-,
 सादयिष्य १अ°, सादि- १उत्प°,
 गो°, सादित-, *सादिन्- द्विषण°,
 *सादिनी- अतद्°, पी°, राधु°,
 साद्य, साय-साधमान-, सीदव्-,
 *सीदव- सविष°, सद्म् > सद्
 पुष्या- २वाश°, सव्त् > *सदा-
 मद्- अपामार्ग°, *सदा-रिषिभि-
 वदिद न°, *सदा(रा-आ)क्रिन्-
 देवभित्°, सद्यश्- प्रति°, योउमि
 पात्र°, सद्यश्- आदिरव°, प्रति°, १°
 रसद्यश्- १अ°, अर्थ°, आमेदित°xx,
 सद्यी- १अ°, बहु°, सादय-
 १अ°, लन्दोम°, विभक्ति°, २°
 रसद्येश- अन्व°, अग्नि°, मार्ज
 जोय°, सविष°°, सद्यस्() १अ°,
 अ-तद्°, सद्यस्कास- १अ°, सद्य-
 स्त्री- > सायदक- १अ°, प्रा-प-

a) वै १, १५०१ ए द । b) = दस विशेष- । c) किम अनुस्यन्म् । d) = शण्ड- ।
 e) पामे इ २९३५ तै द । f) इ २५१३ वनि संख्यासंकेतः द । g) सखन्त प्राति ।

लोम, सघ->सघव- १अ०
 >धां; सघर्म-दधिपानी, सघ-
 र्मन्, साधर्म्य-दूध; (सधातु-);
 *२स०-धातु- अक्षर०
 रसधि- रसधि; √सन्, संह
 धीधो ११, ६:२४[नम्], *५स-
 १६५, गो, सनि-१६भय, १६अ, १६ध०xx; सनिव- सु; सन्धि-
 १७७, *सा- १अ५, १अध०, शेन, गो,
 जिघ्र, धन, वृxx, सादि-
 तोरु, १वाज, दूर; *सानिद्-
 रविण, *सानिनो- अघन, अघ, श्त, धी, श्त, सहस्र, साधु
 रसन-> सनक- ४७; रसन-
 १अ, सनिष्यद्- √स्यन्
 (परि.) द.; सनीड- तविष
 सं√तन् > सतल-> सातलप-
 ष्टिया; सतव, धा- १अ, उपदी०,
 ररक्षिणाप्रानी, प्राण, संतति-
 १अदीन, जागरण, २धर्म, संतनि-
 संहार, २सन, संतम्ब- १अ,
 संतान-अर्थव्यं, कान्, जजाजलज,
 २धर्म, प्रजा, २भाग, बलीक, ४७,
 संतानक- यति, प्रज्ञान
 सं√सप् > संतपन- क्पाठ, संत-
 पन- अति, रश्नीकत, महत्, १यति,
 सताप- १अ
 सं√तुप् > संतोषिद्- १अ
 सं√तृद् > संतृण- १अ, सं√
 तृप् > संतृष- ७, सं√त्वर >
 संत्वरमाण- १अ, सं√दृश् >
 सद्द- औदुम्बर, १पलाश,
 शेन, सं√दृद् > संदृष्ट
 १अ; सं√दिह > सदिभ-
 १अ, संदेह- १अ, अरिष, १अ
 रजमान्xx, *सावेदिक- अयुध-

दिक, सं√दोष > सदीक्षित-
 १वर; सं√दु > मंदाव-
 अरपन; सं√दृश् > संदर्श-
 १अ, संदर्शन- १अ, १धवण,
 धोणा; संदृ- र्वेप, पिण्ड, रण, १अ,
 हिरण्य, सं√दो (यगने) >
 संदान- २सादान, रजु; *सं-
 दित- १अ, सं√दु > *संद्भ-
 वाच्; सं√घा > २संहित, ता-
 १अ, अवार, दहत, रक्षर, १अ
 १अxx, २साहित-१अ; *संहिता-
 स्वर- हैपद्, संदपद्- १अ,
 संभ- २धर्म, संधान- नादापद्,
 पार्श्व, विरिष्ट, १संधि- १अ,
 अट्ट, अग्निष्टोमxx, *सधि-
 फार्दे- रिपु; संधि- १अ,
 संधि(र.)नी- आनिर्दंभ, स्थन्दिनी,
 संधिनीचीर- उट्टी-
 क्षीर, *संधि-सर्पण- उदधाना-
 वेक्षण, *सधि-सामन्- अग्नि-
 ष्टोमसामन्, संभ्य, ध्या-प्रति, नि,
 दिवा, दीर्घ, निशाxx, *सध्या
 (धा-सा)दिपु-प्रेक्षण- उदधाना-
 वेक्षण, १संभोपासव- १अ,
 स्वान, *सधो (धा-उ)पासित्-
 नित्य, *सधो (धा-उ)क्का-
 प्तुस्, संभव- २समान, संधेय,
 या- १अ, २स्वर, संहित, ता-
 २अनदृह, अना पात्य, अर्गवृद्धि,
 अवदान, २धाव, आहवनीयxx
 सं√धाव् (धृदो) > *सं-धावमान-
 १अ, सं√नम् > सन(ग) > जा-
 १अ, संनाम- मन्त्र, सं√नह
 > सनह, खा- १अ, सन्धीन,
 तिरधीन, वधी, संगहन- २ध, ५नी,
 रहित्, धर्म, सनाह-

पविद्, १शक्ति, श्वेत, सर्व,
 सिद्ध, *सं-नि/काष् > *कास-
 उदधि, ज्वलन " ति, मुष्ण-
 मणि...प, सनि/कृष् > *वर्ष-
 कर्तुम्, १राज, देशकाल, प्रयोग,
 गृह, *सनिपं विमर्ष- चन्द्रार्क,
 *कृष्ट- १यगु, *स/निज् > सं-
 नेवन- गोदोहन, संनि/धा >
 धान- १अ, द्रव्यदेहमाहाण,
 प्रकृतिxx, संनिधि- १अ, अग्निदेह-
 माहाण, उच्छिष्टxx; सानिष्य-
 संनिहित, ता- १अ, संनि/पत्
 > *पतित- अर्थ, पाठ- १अ,
 अतिधिपूजागुरूपना, आचार्यधा-
 चार्यxx; सानिपातिक- १धृ, १अ
 *पातिव्- १अ; संनि/भा >
 संनिभ, भा- अन्तरा...ज, किञ्च-
 कारविन्द, कृजित, विन्xx
 संनि/युज् > *संनि-युक्त- मति-
 संज्ञ, प्रतिपेय, प्रवय, योग-
 १अ, उपपद, प्रत्ययसज्ञ, लिङ्
 संनि/वप् > वाप- २धर्म,
 सन्नुस- १अ, संनि/विष् >
 *संनिवेश- १अ, सं/नी >
 संवप- १अ, संनाम्य- १अ,
 संआज्य, पुरोडाश, संन्य(नि/व)
 सू > *सन्ध(नि अ)सन- संन्यास-
 वेद, √सप् > *साप्-
 १अ, सप- यथा, रसपिण्ड,
 षडा- १अ, १३व, पुन, २नाट,
 सपुत्रक->सपुत्रिका-
 सतनु- १अद, १एक, त्रि,
 त्रिभू, त्रिुxx, सतक- चरु, २वी,
 पातालxx, सतति- १ए, त्रि,
 दि, १यन्, १ए, सतन्, सतप्रिणव-
 १अद, सतवन्-

a) पृ २५१९ अति. सल्लसजिते द. ।
 b) = रस- । c) पृ २५१९ अर १दुदा->तना. द. ।
 d) कर्तार उ प्र । e) = चूर्ण- । f) पृ २५२६ सपु(नह) > निरका-> यनि. द. ।

१अव०, ससदश-अर्थ०, दृढपति०,
 ज्योतिषोम०, त्रिज्ञ०xx, *सस-
 धा-व- मोहादि०, ससम- अर्थ०,
 का०,आत्मन्०xx,ससमी-तु०वार्थ०,
 सुतीषा०, द्वितीया०, सुज्ञवक्ष०, पठो०,
 *ससम्भ(मी-अ)न्त- सुतीषान्त०,
 ससमनाम- प्रकम०, ४४०, सस-
 राध- अर्थ०, जन०,ससर्षि-स्वगो-
 रादि०, *ससर्षि देव-व-स्वादि०,
 ससविध- १अ०, ससन्पाहृति
 (-क>)रा- ४स०, सससव- त्रय-
 दिग्शब्द०, ससवाफ- १अ०, वृट्०,
 *सस समिध्- ऋदि०, ससार्प-
 एकार्प०, ससाह- जि०, हि०
 *स प्रमा०- राशन०,वृद्ध०,रजतधरा०,
 सुधान्तु०, ससाय- आसिन्०, वर०
 सप्रह्लाचारिन्- १अ०, तद्मापार्-
 पुत्र०, १शिव०, सगोत्र०
 *स०-प्रस- दया०
 समा- देवपुत्र०, १यम०, २वेदि०,
 समय- पु०, सभय- १अ०, आह-
 कनोय०, १वार्हपत्य०, सासिन्०
 १सम- १अ०, अलतो० न्य०, अक्षर०,
 अतुपात०, अपरय०xx, १साम०-
 १साम्य- तद्०, देश०, संस्था०, ०र्व०,
 *सम काल- तद्०, समवा- नक्षत्र०,
 समसव- १अ०, समविभाज- १अ०,
 समदिवस- १वाच् २सम, मा-
 २आर०, दायजन्०, विद्यति०
 *समक०- एव०, समक्ष- १अ०
 समग्र- > *समग्र दान- १अ०
 सम्√अञ्ज् > समजन- पुत्र०
 सम्√अञ्ज् (युक्तवाये) >
 समजनस- > सामजनस- १अ०,
 अख्या०, सम्√अन् > १समता-

उदान०, प्राण०, समनस्- >
 *सामनसी०- कृत्ति०, समन्त-
 इगोरधीय०, सदोपसीय०, *१सा
 मन्त- आरुति०, समन्वी√कृ >
 *कार- राय नित् ९, ६ २१६
 समन्वा√नी > *नीय १अ०
 समन्वा√रम् > *रुच- १अ०,
 आचान्त०, उच्छिष्ट०, यथोक्तकम०
 समन्वि (सु√इ) > समान्वत-
 अहिषा द्वा०, वयू०, षोडशोम०xx
 समभि√हृ > *हार- क्रिया०,
 *समम् मासि ७, ५, १समर
 (वप्रा)०- अक०, १लेखा०, २४६०
 सम्√वर्थ > २समर्थ, धा०- १ग०,
 आति०, चलन०xx, सामर्थ्य-
 १अ०, अथिवार०, अतुक्कण०xx
 *स० मर्था (दा>)द्- सविष०
 समव√दो > *वत्- > *सुधानी-
 उपरुत्त०, ३वेद०, समवदाय-१अ०
 समवे(व√इ) > समवाच- १अ०,
 अर्थ०, १कान्०, एकार्थ०xx, *सम-
 वा(न-अ)सिन्- १अ०, *समवापि
 त्व- प्रबोध०, धुति०, समवेत-
 १अ०, आवा०, सम्√अस
 (क्षेपे)>समस्त- १अ०, -वस्त०,
 समास- १अ०, अक्षर०, अन्त०xx
 समासङ्ग- > *समासाङ्ग-योग-
 १अ०, समासान्य- १अ०, सर्व
 नामर०, २स्वर०
 समा√कुल् > *कुल- दृणतली०,
 १दरजा०, १वमली० त०, वर्ग०
 *सम्-आ√कृ(विधेये) > *कीर्ण-
 क्रमवधि०, समा√ख्या> *रथा-
 चित्र०, धुति०, *समान-उपदेश०, यज
 मान०, लिङ्ग०, धुति०, समा√गम्

> *धम- सुहृन्मन०, समा√वि
 > *समा-चित- कटावली० द्व०
 समा√धा > *समा-ज्ञा- न्याय्य०
 *१समाति०- १अ०, समा√धा >
 *धान- अग्नि०, १मन्त्र०, *धि-
 अन्त०, १रुके०, आख्यसाम०,
 पर्याय०xx, *दिग- एरान्त०, जलवेग०,
 म-द्रवान०, भिषिपभय०, सु०,
 १समाहितमनस्०-१, *२समाहित-
 मनस्०- होम०, २समान,जा-
 १अ०, अग्निमन्थनादि०, उन्निद्र०
 ध्य०, क्षत्रिय०xx, सामान्य,न्या-
 १अ०, अक्षरवर्ण०, १अ०, अति
 रिक्त०xx, *समान-अपि-गोत्र-
 जाता- १अ०, समानकर्तृक-वर्गन्त०,
 *समान-त्व- संख्या०, समानवि-
 धान- समानक्षण्या- १अ०,
 १समानाउर-गो०,समानाङ्ग-१अ०,
 समानाधिकरण- १अ०, कुम्भि-
 तादि०, प्रथमा०, सख्या०, रत्न०,
 *सामानाधिकरण्य- पद०, प्राति-
 पदिक०, विधव०, सख्या०, *समाना-
 (न-आ)र्ष गोत्र-जा- समा-
 नार्षेव- १अ०, समा√नी >
 *नयन- १अ०, सम्√आप् >
 समाचर- उपाकरण०, १कारण०,
 वैत्री०, २काल्पनी०, मन्त्र०, न्या-
 करण०, *समापनी- प्रत०, *समा-
 पनीय- समावर्तनीय०, *सम्-आप
 सित्वद्- १अ०, *सम्-आपिन्-
 पीपकृष्ण०, समाप्त, एत- १अ०,
 कर्म०, वि०, प्रत०, समाप्ति- १अ०,
 अर्थ०, क्रिया०xx, समाप्तियचव-
 नामन्त्र०, समाप्तव १अ०, समा√पद्
 > *पत्ति- १अ०, उपाचारदीर्घत्व०

a) वत. पू. = ३७-१ b) = ३९-१ c) २२५४० यदि सख्यासकेत इ । d) वैप १ इ ।
 e) २२५५० सम्√न> यदि इ । f) = (समन्त्र शब्द-वती) जप् १ g) यदि स्थल गोव । h) = सपि,
 १वेद । i) २२५५० यदि सख्यासकेत इ । j) कस ।

दीर्घत°, *समा-पाइन- १काल°,
 समापाय- प्रश्ल°°, समा√म्ना
 >°म्नात्,ता- १अ°, यथा°;
 *म्नान- सर्वपद्°, *म्नाप- २उत्प°,
 १अव°, पद्°xx, समा√मु>
 *युत- अरूलाव°, क्षीर°, *सम्-आ
 √पुञ् >°पुञ्- अहमेन्द्रिय°,
 देशकाल°, लघु°, समा√रह् >
 *रह- १अ°, १उक्ष°, *शेषण-
 अरिण°, व्यामर्°, १भस्मर्°, समिप्°,
 *शेषित- १अ°, *शेषण->*समा-
 रोहणीय- प्रतिपद्°, *शेष १अ°

समा √लभ् म् > *समालम्भन-
 १अ°, समा √विष् > *वेत्त-
 १अ°, क्षावार°, १एताक्षर°,
 १संज्ञा°, *वेशन-अतु°, समा√पृत्
 >°पर्वन- ऋतुसंगमन°, यमा-
 षान°, विवाह°, वृत्त-१अ°, १वम°

समा√धि > *समा-धय- सर्व-
 त्पर°, समा√हृत् >°हृत्- वज्र-
 शीर्ष°, समा√हृ >°हृत्-उच्चनीच-
 स्तुत°, तद्°, तद्विदार्य°, समु√इ>
 समय- १अ°, व्याख्यान°, आगामि
 द्यल°, आचार्य°xx, *सम् हृत्-
 वार्ध°, समिति- १सर्वा°, समु√
 इप्,रभ्>समिद्ध- १अ°, प्रथम°,
 समिधमान°, समिध्- अतसी°,
 अतु°, नृ°याव°, १इर्क°xx, सामि-
 धेनी- आधार°, पद्यरचन°, प्रति°,
 २मान°, शकत्°, *सामिधेयि-
 अतु°, सामिधेयी(-क)- १अ°,
 पद्यरचन°, सतदरत्°, समिन्(-क)-
 १अ°, आदित°, *समिन्-वन्-
 अङ्गहोम°, समिदाधान- मेलला-
 धारण°, *समिद्-भो(<ले)म-
 प्रतद्°, १गन्धोपसन°, रवान°,
 समिध्,समिन्-न-,*सम् हृत्-धाय-

१अ°,सम् √ईश् >°क्षय- प्रश-
 माण°, *क्षय १अ°, समीप-अग्नि°,
 अङ्गदेश°, अ तसंध्या°, आहवनीय°xx,
 सामीप्य- किंशप्रदन्ध°, वर्तमान°
 सम् √ईर् > *यज- वायुशरीर°,
 *रित, वा- २अतु°, मैत्रानक्षत्र°,
 १वात°, १वेग°, सु°, *सम् √ईप्
 (पत्नी) > सम् ईष (त >)ती-
 *सपन°, स्तोत्र°, समुच् √चर् >
 *चतुष्- १काल°, समुच् √चि
 (चकने) > समुच्चय- साम्यनिय°,
 १द्वय°, पदार्थ°, प्रायश्चित°, मत°,
 शाल°, सर्वसर्व°, समुच् √च्छि >
 *च्छिन्न,वा-पूर्णाक्ष°, समुत्था(त् √
 रथा) > *समुत्थ- कर्मन्°, तुल्य-
 गानप्रतिमान°, नानाराम°, परचक°,
 *समुत्थान- तद्°, समुत् √पत्
 > *समुत् पठित- २महत्त°,
 *सम्-उत् √सिप् > समुत्सेध-
 दक्षहस्त°

समुत् √सृज् > *समुत्-सर्ग-
 अयोडापु°, *सम्-उद् आ √चर्
 >°चर- वैशानसवाद्य°
 समुद् √इ >°दाय- अक्षर°, मर्षयत्°,
 योदना°, तद्°, १इ°xx, फलनियम-
 नर्तु°, रसाङ्ग°, *सामुदायिक-
 जन्मन्°, *दिङ्- १अ°, यथा°
 समुदे (रा √इ) > *देव- १अ°,
 अग्निजन्मविद्या°, समुद् √दिग्
 >°दिग्-उपाय°, १इ°xx, समुद्
 √भू > *समुद्-भव- नतोय°,
 प्रसन्नोर्ध°, रमातल° शान्तद्वय°,
 *भूर- *शशास्त्री°
 १समुद्- भवु°, नदी°, सुा°, उतति°,
 गरित°, सामुद्-१मुत्प°, *समुद्-
 मुहा- २अ°, *समुद्-जल- दिना-
 सुमी त°, समुप् √धे > *हृप

१अ°,सम् √ऊह् > समूह-१अ°,
 अक्षर°, रुपा°xx, सम् √संभृ
 > समुद्- अन्नलत°, तिसृ°, रूप°xx,
 समुद्धि-१अ°, आशिम्°, एतद् °xx
 समे(ना √इ) > समेत- बुद्धिबुद्धि°,
 १मन्त्र°, समोच १अ°, सं √पत्
 > सपात- १अ°, आदित्यमहद्°,
 २श्रादिन्°xx, *सं पातिन्- तद् °
 सं √पद् > संपत्ति- १अ°, कर्मन्°,
 १काल°xx, संपत्ति (-क)- योग°,
 सपद्-१अ°, अदान°, आत्मन्°xx,
 सापद्- २अनदुद्°, धाम°, अद्-
 चारिद्°, र्वा°, *सापदी- २अ°,
 *संपद्-अचल- समिधि°, सपन्,
 न्ना- अक्षयन्°, सन्ववाटति°, अग्नि-
 द्वित्युष्ण°xx, सपादिन्- १अप्र°,
 १वश°, सोम°, *सपादिनी- आङ्गा°
 संपरे (रा √इ) > सापराधिक-
 अग्निच्छिन्°
 सं √पिप् > *प- तु°
 *सं √पीह् > सपीडा- २अल°
 *संपुट- सृष्टाव°, सं √पृ, पृ >
 सारुण- मारा°, सपूर्ण- १अ°,
 २२२°, पूषतोषि°, १वत्°xx
 सं √पृच् > *स-पृक्- चाण्डाल°,
 तिलउत्पुत° तैल°, *स-पृक्- >
 *क पालि-, सट्टयान- १अ°
 सप्र √कृ > *सप्र कीर्ण- यथा°
 संप्र √क्षी > *क्षाय १अ°
 सं √प्रक्ष् > सप्रदन- १विधि°
 *संप्र √धा > *यानान-, जाव-
 १इ°, सप्रति १इ°, संप्रती (ती
 √इ) > सप्रत्यप- १इ°, संप्रती°,
 वार्थ°xx, *संप्रपायक- उच्चा-
 येनाप°
 संप्र √दा > *दान- अशक्षीरता°,
 १इ°xx, १िशा°, १संप्रपाय- १वत्°,

a) सम-(<सर्व-) + (शाय->) वत्च- + (नव->) घ- (घ. १भा. ज्ञुया) ईति मतम् ।

०३३, *सं-प्र √धृ> *वारणा-
 १०३, संप्र √युज् > *बोग-
 पतित, रति, संप्र √विशु > *सप्र-
 वेत् - > *श सभाया- छ३
 संप्र √सु > *सारण- १अ, ३अ-भा०,
 व्यापित, सप्रा (प्र/ब)प् >
 *स- १अ, उ-जोच्युत् १, *सप्राति-
 १अ, श्रवणमन्त्र, सप्रे(प्र/ई)ष्
 > *सप्रे(प्र-ई)क्षित-> *उ-त्व-
 हेतुभूतवाल, संप्रे(प्र/ई)ष् > *स-
 प्रे(प्र इ)प- दक्षिणाभमार्जन, संप्रे-
 पित- १अ, यथा, संप्रेप- अधर्यु, *
 आश्रुत, उक्त xx, संप्रो(प्र/व)
 क्ष > *सप्रे(प्र-उ)क्षित- सु०
 सं √प्लु > संप्लव- १भू, राप्
 सं √वष् > संवट्- १अ,
 हुल्लेकल, वेतानेवरादि, गह-
 तमाधर्ग, रोप, संवष्- १अ,
 क-य, अन्वाय, अर्ष xx, *सा
 व-य- क्त, संवन्धिष्- अर्ष,
 अन्विष्, राजन्, *सवन्धिष्नी-
 १वङ्, सवन्धिष्-अव- तद्
 स √वाष् > सवाष्- १अ
 स √युष् > सयुष्- १अ, अट्ट
 स √भाष् > सभाष्- १अ
 स √भाप् > सभाप- ज्ञाति,
 रमाक्षण, सभापण- आरुहाल-
 म्बळ, पित, परस्त्री, श्रीशूद्र,
 सभाया- १अ, रमाक्षण, सप्र-
 वेत्, सभापित्- १वाधर्ग,
 सभाप्य, *स-भाप्य- १अ
 स √भिद् > सभिद्- १अ,
 सभिन्, न्वा- १अ सु, सभेद्-
 थापार, छाया, *स-भेद्- उ या
 सं √मुञ् > (भोजन) > *समुक-

मनुष्य, सं √भू > सभव-
 १अ, २अफल, अतसंहा,
 १अपर्य xx, सभवन्- १अ, *स-
 भापना- आवाता, पदार्थ, सभा-
 पित- आत्मन्, सुवद्, संभूत-
 १अद्, पूर्व, सभूति- १अ,
 १वली, *सभूति-सरक्षा संहार-
 जगत्, संभूयस्-> √सभूयस्
 सं √भृ > सभरण- २अप्यादन,
 उया, प्रसर्थ, समार, *संभरण
 (ण-आ)स्तरण- १पातु, सभार-
 अन्वाद्, १अरणि, अर xx,
 *सभार-जल, सभारयजुष् (-क)-
 ४०, सभार्ध- १एक, द्वि, पृथक्,
 *स-भृत्- सु०, सभृत्- १अ,
 १पु, पूर्व, पु
 सं √भ्रम् > *भ्रम- १अ, १धुम, वायु
 सं √मद् > १समद्- सायु
 सं √मन् > समन्- अनाश्च,
 १अ, सायु, २समन्ति- १अ,
 १संमान- १दान, सं √मा(माने)
 > समा- १लोक, २संमान- युव,
 रेवेदि, १संमित, ता- १अ,
 २अक्ष, अग्निष्टोम, १अद्, अति
 रात्र xx, संमिति- > *समि
 तिद्- १अ, समिध- १अक,
 सति, समुख- भूमि
 सं √मुक् > *स-मुक्- २वातु
 स √मृज् > समार्ग- अग्निमंज,
 उदत्, सामिधेनी, सव, सुसुप्त,
 *स मार्गम् १अ, समार्जन- अग्नि,
 २दक्षिण, द्वारवाह, पात्र xx,
 १समृष्ट, धा- १अ, विक, सु
 सं √मुद् > *द्व- १अ, सं √सृश्
 > समसन्- पयोवह, १अ, पाणि,

प्राण, *२स-सृष्ट- १अ
 *सं √स्तेत् (वर्षेण) > सं-स्तेत् १अ
 सम् √राज् > सप्रान्- १दधि
 सय-, सयिष्- √सि (परि) इ
 सयुह्- > सायुज्य- १अयु, तप,
 १युगति, वेयुष्ट, सायुज्य(-क)-
 १द, सयोनि- १युषी
 सर-, सारणी- सय- √सि(परि) इ
 रसरश्मि, *२स-रश्मि- वर-
 युत्, रसरस्- अनत्, सत्, सत्,
 सरोरह- बालाङ्कोषित, *सरो-
 वर- प्रयत्न, २सरस्-> सर-
 स्वती- अति, अतु, २अस्ति,
 १धी, १हरि, सारस्वत- १अ,
 आमेय, १आश्विन, कौरव्यापिन,
 २याम, सट्कथाहु, वावित्र
 सरित्- महद्, सरुप- १अ,
 नभोरु, सारुप्य- नामधेय,
 गवदाग्नाम, सरुपता- पुत्रोत्-
 सर, सरोफ- अत्
 सर्गम् मृत् √सृ (परि) इ
 √सर्ज् २उद्
 *सर्ज- १अद्, सर्ज-रस्- अतिठक
 *सर्जक- विपत्नी
 सर्जन- प्रय √सृ (परि) इ
 सर्तव्य- √ध (परि) इ, रसर्प-
 १अदि, १अद्, वाच, ऊ-
 वात् xx, सर्प- भादिल, सर्प-
 राज्- > १सर्पता (स) गी-
 अयु, *सर्पे (प-इ) वरजन्त (-क)-
 ४०, सर्पक, सर्पम्, सर्पि(र) >
 गी- √सृ (परि) इ
 सर्पिस्- अमुष्ट, १कम, इष्टम्,
 धीर xx, *सर्पिष् श्वन्- २शाव,
 सर्पिष् (-क)- आधिक, वहु

a) सर्पे प्र । b) इ २१८० निर्देश सचातुर्विह. इ । c) = प्रत्य विशेष । d) भाप ।
 e) इ २१९१ यनि सार्यातवेत् इ । f) इ २१९३ यनि सख्यातवेत् इ । g) पूष = २स-१ । h) पा-
 अन्वस्ते षन्द्दे वृत्तिरित्येवम् इ । i) = रस विशेष- । j) नाप. (भोपवि-) ।

सर्भन्-सर्भान्- ✓सु (परि) द्र.
 सर्व- रेषाम् द्विभौ १६, १, २५^३
 [१०-१अ°, श्रुत°°, अहस्°, उनीत°,
 १६व्य°*], सर्वग्यानि-सहस्ररुण°,
 सर्वत्व-°, *सर्वत्रय- गति-
 १अ° सर्वधन- बहु°, सर्वधातु->
 सार्वधातुक- ह्य°, *सार्वधातुक-द्वि-
 ग्रहण- आत्मनेपदविधि°°, सर्वना-
 मन्- १अ°, २अव्य°, समास°, *सार्व-
 नाम्य- प्रकृति°, सर्वनामस्थान-
 १अ°, *सर्वपक्षवा- तमिद°, सर्व
 पृष्ठ- १अ°, २अत्र°, सर्वस्तोम°,
 *सर्वपृष्ठा हविष्- न्विनिशाश्री २,
 २६, ४, सर्वप्रायश्चित्त- महाव्या-
 दृति°, सर्वभक्ष- १अ°, सर्वभूत-
 २त्राहाण°, सर्वभूमि-> साव-
 भीम- १अ°, सर्वरस- सर्वगन्ध°,
 १सर्वलिङ्ग°, सर्वविभक्ति-, सर्व-
 विषय- सर्वबीर- १अ°, सर्ववेदस-
 २सत्र°, सर्वशस्त्र (:), *सर्व-क्षेप-
 १अ°, *सर्वसाधन- विज्ञा°, सर्व
 सुरभि- वाधि°, सर्वस्तोम- आत्म
 क्षीम°, चतुर्क्षीम°, सर्वस्व- इत°,
 सर्वक्षीम- १अ°, १सार्द्ध- चन्दनी
 क्षित°, वाह°, स-रोधचत°,
 सर्पो मरु-> *सर्पोमक-काळ-
 मन्त्रोक्त°, सर्वादिदा- अतरण°,
 सवासुधास- एकादशशतुरन्तर°,
 सर्वाक्ष- १द्रनुपद° *सर्वै(र्वेद)
 द्विष-सक्ति- सर्वतम्°, सर्वागत°
 अथ ७०^१ १ ३°, सर्वापकर-
 धविहित°, सर्वोपधि- सर्वगन्ध°°

सर्पप- अतली°, १कण°, २बीर°*
 सर्पपक-क- मृद°, *सर्पप वैल-
 सय पीडित°, सर्खाण- ✓सु
 (परि) द्र, *सल-श्रा°, *सलवि-
 श्य°, अव°, प्र°, २सलिङ्ग- त्रैप°
 सलिल- बहुप°, सलोक->
 सारोक्ष्य- श्रमि°, चन्द्र°, २सर्प°
 सय- श्रमि°, अणत्°, इन्द्र°, ऋतु°,
 श्रोदन°, श्रोपधि°, १धत्र°, गो°,
 प्रामणी°, तीम°, १वाधायक°,
 २शुधि°, प्र°, प्रातर्°, बृहस्पति°
 श्रद्धन्°, भूति°, मास°, मृदु°, रथा°,
 वनस्पति°, वनिष्पु° वैरु°, सत्य°,
 २मृत्°, सोम°, स्वपति°
 *सवशा- ३निति°, ३सवन-
 ✓सु (वधा)परि द, *सवना
 नयेत् समुत्थितम्^३ अण१२, १ ८
 सवनी- ✓सु (आत्मन)परि द्र
 सवर्गा-> सवर्गोव- २सवर्ग°
 १अ°, उद्यम°, १क°,
 २सवर्ण- १अ°, उद्यम°, १क°,
 २, १त°, तद्°, घ°, १पर°, पूर्व°,
 प्र-व्य°, ६°, १म°, २सातृ°, यत्नेप°,
 वर्ग°, सर्वर्षीर्ष- उद्य°, सवर्ण-
 क्तविक्रम- मं, सर्वर्षीर्ष(र्ष)प°
 २सवर्ण- > १सावर्ण- वरक°
 ४सवर्ण->र्षा->२सावर्ण- २क्ष°,
 २धर्म°, ब्रह्मन्°, रद्°, १सवितृ-
 कृष्णा°, इन्द्र°, वासु°, सावित्र-
 आग्नेय°, आदित्यप्रह°, ऐ २°*
 सावित्री- पतित°, महाव्यादृति°,
 रद्°, सवति°, १सामन्°,
 *साविन्वु (त्री-उ)उरम-दा-मान-

वागताएवेशन°, सावित्रप्रह-आदि-
 त्प्रह°, सावित्रैककपाल°-
 २सवितृ- ✓सु (वधा) परि द्र
 सविध- प्रकृति°, सविन्- ✓सु
 (वधा)परि द्र, सविरोप- अणत्°,
 चतुर्थे°, २द°, प्रादेश°, वाष्ठा°, *स°
 वेश- सविम°, १सव्य- २अ°,
 श्रमि°, वार्य°, प्राथमविश्व°, २सव्य-
 > १सव्य-°, ३सव्य- ✓सु
 (वधा)परि द्र, ✓सव्यच्-
 सञ्चच्- ✓सच् (परि) द्र
 सस्थान- १अ°, उद्य°, पूर्व°, पूर्वा त°
 *स° स्मित- वीणादुग्धि°
 सस्थ- श्रा°, उभयतस्°, २शु°,
 मरुव°, मास°, विनष्ट°, सर्व°, सु°,
 सुगन्धिजेज्ज°, *सस्य रत्न गन्ध-
 सर्व°, सस्राण- ✓सु (परि) द्र
 सस्वजाता- ✓सत् (परि) द्र
 २सस्वर- आमन्त्रित°, ✓सह
 श्रमि°, २उद्य°, नि°, निम्°, परि°,
 प्र°, नि°, सम्°, *ससहि-, *सह-
 बाहुनी°, जना°, चर्षणा°, पुतना°,
 रथा°, विष्णा°, १सह- १अ°,
 अग्नि°, छुत्पिपासा°, सर्वम्°, शोभ°,
 हिमातपवर्ष°, २सह-सहग- १अ°,
 जुर°, सहमान-, सहस-
 १ध्वेज्, साहस- उद्यम°, श्रेह°,
 प्रथम°*^३, साहसिष्ठ- राण्, °°,
 साहसिष्ठ- गन्धन°, *सहान-,
 सहिष्णु- प्रथ°, १सह- १अ°, वृ°,
 *सहन्-, सासहि- वृ°, *साह-
 श्रमिमाति°, अक्षय°, आहुति°, प्रता°,

७) वृ २५५५ क 'वधा मास ४ ६, ६, १५ वाश्री १२, २ ८ सस्य इति पामे' शत परनीचम् । ४) = 'सर्वेत्- (=सर्वय-)
 + [मयउध] च प्र (तु पना सर्वस-) इति मत्तम् । ८) पूष = इच्छि-रित्तिव (तु शोमा १२, ५) । वृ २५०५ उरव. सर्वपृष्ठा
 इति नष्टम् । ८) पस । ९) = 'सर्वस्व- (=सर्वस्व-)+[मयउधे] च प्र इति मत्तम् । १) यनि स्वल शोष ।
 ह) नाप. (ओपधि-) । १) वृ २२३५ P °न-वत्->यान द । १) वृ २६१६ °कर-रे->यन द । १) अथ
 °(र्षो-अ)पु->यनि द । १) वृ २२६१५ यनि सव्यसस्य द । १) वृ २६२० °त्रैकपा->यनि द । १) = १स- ।
 १) उय = १वेद- । १) वृ २६२१ यनि सव्यसस्य द । १) = ४स । १) वृ २२३५ विष्वासाह->ह- शत द ।

१जव*xx; *सादिन्-; *साह-
भूमिमाति°, दु°, पुतना°, सोड- १अ°
सह- √सह (परि.) द.

सह दिव्य°, सु°; सहचर- >
साहचर्य- भक्ति°; *सह-चरित-
श्रयन्त°; सहदेव- श्रद्धाश्रय°;
सहदेवी- रत्नदनी°; *सह-पाठ-
नियत°; *सह-भोजन- नार्था°;
*सह योग- दिङ्मसात्°; *सह-
वासिन्- १अ°; सहाभ्यासिन्-
आचार्यपत्नीपुत्र°; सहाय- १अ°;
गुह्यत्°, ज्ञानाश्री°, रिपु°, गवी°;
सहासन- गमन°; सहोव- अनीन°;
हालेव°; *सहो(ह-उ)र- १अ°;
*सहो(ह-उ)पपति-वेदमन्- रज-
सता°, सहर्षी°, सहस्र- श्रद्धत-
तत्सहावृत्ति°, अक्षर°, अग्निष्टोम°,
अथर्व°xx; साहस- दक्षत्°, द्वि°;
शत°, १सम°; *सहस्र-वर्ष- २ष्ट°;
*सहस्र-त्रिवय- समिध°; सहस्र-
संघ-सुर- प्रजापते°, दिक्सप्तशाम्°;
सहस्रसाध्य- शस्त्रे°; *सहस्रा (स-
था)वृष्ण- अज्ञातृष्ण°; सहान-
√सह (परि.) द; सहिरण्य-
ज्यसुम्भ°; सहस्र- √सह (परि.)
द; सांवत्सरीय- संवत्सर-
(परि.) द.; रेसाक->साकमेध-
वरहप्रवाध°; रेसाक्ष->साक्षत्

√ह > कृतकर्मन्-१अ°, तासिन्-
१अ°, उदिष्ट°, दृष्ट°, दृष्टितर्ज्यादुष्ट°,
सर्व°, शामिन्°; साक्षि(-क)-
१अ°, साक्षन्°, ४४°; *साक्षि-प्रणि-
हित-१अ°, साक्ष्य- १देव°, मनुष्य°,
१समुद्र°, सागर- गडा°, मि°,
गन्°, ४४°, भाव°, सर्वसाधारण°; *सा-

गर-तोय- अनलाकलित°; साच्-
प्रथ. √सच् (परि.) द.; साण्ड-
शाम°, सादिन्- √सद् (परि.) द.

√साच् डप°, प्र°, सम्°; साधक,
का- अ°, अन्व°, सर्वार्थ°, स्वार्थ°;
*साधको- अर्थ°, पुत्र°; *साधक-
सर- शक्तिम्°; साधन- अग्नि°,
कर्मन्°. १वय°xx; *साधनी-
पशु°, भूति°, सर्वार्थ°; *साधस्य°-
क्षेत्र°; *साधि (न् >) वी-; साधु-
१अ°, आश्रुति°, १उदक°, यहस्य°,
प्रेक्षित°, नाना°, साध्यो- १अ°, साधु-
कारिन्- तद्°, साध्य-१अ°, १एक°,
दक्षकवाच्य° हेतिर°, दुस्य°; रसाधा-
रण- श्रम°, आनीप्र°, १पुण्य°;
साधारणत्व- क्रिया°; साधारण्य-
प्रयोग°, लिङ°, सान- √सो (परि.) द.

सानु- ऊर्ध्व°, २पर्वत°, पृथाङ्°
सांदिहिक- सं √दिह् (परि.) द.
साप्- √सप् (परि.) द.

रसामन्- १अ°, अग्निष्टोम°, अग्निष्टोम-
संधि°, अग्नेमिधि°, अन्नजाक°xx;
सानी- > साम्बनुष्टम्-
भुरिञ्°; *रसाम- आग्निष्टोम°,
अनु°, अन्व°, १अव्°, प्रति°,
प्रज्ञान°; सामान- १अव्°°;
सामन्दि- प्र°; सामवेद- श्रावद°;
सामान्द- छद्म्°, श्रुतयसवन°,
२भाग°, वाच°, रसवान°, सामि-
१अ°; सांमन्ध- सं √वच् (परि.)
द.; साय √सो (परि.) द.

रसाय°- धनि°, वंक्ला°, सु°;
*साय-दुज-के आग्निष्ट २, ५, १ :
६; वीपि १.१ : ५; वीप २, १०,
२०; रसाय- √सो (परि.) द.

रसायक- राजन्°; साविन्-
साव्य √सो (परि.) द.

रसार- १अ°, आन्नाय°, निन्°, संदिता°;
*रसा(र-अ)काल-वधा°; रेसार-
(> १सारक°-); रेसारक- √स
(परि.) द.; रेसारङ्ग- १कृष्ण°,
जम्ब°, १लोहित°, विपुविम्बर°,
रसित°; सारण-प्रथ. √स (परि.)
द.; सारथि- १अव°, अंतंब°,
कलाण°xx; सारण्य- १अस°

सारयत्- √स (परि.) द.

सारस- कलाविङ्ग°, १काक°,
३वक°; *सारि- १शुभ्र°; सारि
(क >) का- कलाविङ्ग°, १काक°,
३वक°, ४६°; सारित- प्रथ.
√स (परि.) द.; *सार्दानव-
गौतम°; सार्य प्रथ. √स (परि.)
द.; *सार्दि- यरक°; रसाव्य-
सौवीर°; साव- रसाव्य- √स
(अग्निपर्व) परि. द.

*सामस्क- आखु°; साह- प्रथ.
√सह (परि.) द.

√सि २उद°, नि°, परि°, प्र°, वि°;
*सय-, सयन-, *ससिन्-;
सित- १अ°, *सिति-; सेह-क्या°.
पुण्य°, प्रतिमा°; *सि- ल°,
सि°; सिंह- रश्मिद्वह°, गो°,
मृग°xx; *सिंहक- व्याघ्र°;
सिंहमुष्ट- पाठीन°; सिंहासन-
रय°; रसिहक°-

*सिंहल- १अरन्°; रसिकत.ता-

कर°, पाहु°xx; *सिंहकाल-वाद्या-नि°
√सिच्, कच् अति°, अतु°, अतु-
परा°, अतुपरि°, अतुपथा°, अतुवि°,
अत्यति°, अन्वा°, अग्नि°, अग्नि-

a) वैष १ द.। b) पृ २६२९ सह > यनि. द.। c) पृ २६४३ वनि. संख्यासंकेतः द.। d) पृ २६५५
वनि. संख्यासंकेतः द.। e) = सारिच-। f) व्या.। g) = रस-। h) पृ २६४८ वनि. संख्यासंकेतः द.।
i) = देव-विशेषः।

समा°, अन्धा°, अन्धुप°, अन्°,
 अवा°, २३द्°, उप°, उपा°, नि°,
 निस्°, परा°, परि°, पर्या°, प्र°,
 प्रति°, प्रत्यय°, प्रत्या°, वि°, व्यति°,
 व्या°, वृद्°, संनि°, सम्°, समा°;
 सिक्- १३°, १३°, १३विन्दु°××;
 *सिक्-त्व- आहारपान°; *रसिच्-
 रेतस्°, १२३°; *सिच्य, *सिच्य-
 सिच्यमान, ना-, सिञ्चत्-, *सिचि-
 चान-, सेक- १३प्र°, रेतस्°;
 *सेकम्, *सेकह-, *सेक्य-,
 *सेक्यत्-, *सेक्यमाण-, *सेक्य-;
 १सेचन- दुन्दुभि°, नी°, १विप°,
 सु°; *सेचम्, *सेचयित्वा, *सेचित्-
 रसिच्- १३स्त्र°, १शिला°
 रसिच्- २स्त्र°
 रसित- १गीत°, २रक°
 रसित- ✓सो (परि.) द.; *सिती-
 वार- २आवा°; ✓सिष् अतु°,
 अण°, अभि°, २उद्°, उप°, नि°,
 नित्°, प्र°, प्रति°, विप्रति°, सम्°;
 सिद्ध- १अ°, १उद्क°, वृत्त°××;
 सिद्धत्व- अन्धासादेश°, स्वभाव°;
 *सिद्धान्त- १सय°; सिद्धार्थक-
 १एजा°, खट्व°, ताळवृत्त°, इवा°;
 *सिद्धो (इ-उ) पहार- गन्ध°;
 सिद्धोपाय- १अ°; सिद्धि- १अ°,
 अर्थ°, १एक°, कर्मव°××; *सिष्-
 *सिच्य; *सिच्यत्व- १अ°, *सेध-
 दु°; *सेधक-, *सेध्य-, *सेधन-,
 *सेधमान-, *सेष्य-, *सेषिष्य-
 सिनीवाली- अतुमति°, राका°
 सिन्धु- उपाहर°, नन्दि°, परि°,
 मुचु°, लौटाष्ट°, १स्वल्°, इद°;
 सैन्धव-गी°; ✓सिन्धु>सिन्ध

(र.)सी- १अ°; *सिपुन-
 रचिति°, १पलाश°; ✓सि, सीय्
 अभि°, २उद्°, नि°, परि°, प्रति°,
 वि°, सम्°; *सीवन-, *सीन्य,
 *रसेवन-; स्तूत- १अ°, वरुणा°
 सीता- अतु°, चतुर°, रथ°, कोट-
 शर°, सहस्र°; सीतावज- आयो-
 जन°; *सीता-लोठ- वमीशाला°
 सीधु- सुरा°; सीमन्, मा- प्राम°,
 दु°; सीमन्-अकृत°, कतुर्गमन°;
 पुंयवन°, विवाह°; सीमन्तोन्नयन-
 अकृत°, गर्भाधान°, निषेक°;
 सीमान्त- अ°
 रसीर-अतु°, अण°, उप°, औन्द्वर°,
 १कृष्ण°, धेनु°, परि°, रथ°, भुना°
 सीस, सा- १अप्रसु°, ताक°,
 १अतु°, नदी°, राजत°, स्लेष्मन्°;
 सीसक- १अतु°; सु १उर°,
 १कृ°, नव्, वहु°; ✓सु (अभिपे)
 अवि°, अभि°, प्र°, सम्°; रसन-
 कपरिके°, अहर्°, रटपाष्ट°,
 छन्दस्°××; *सवनी- १गुर्वरी°;
 सवनीय- आशीपोनीय°, १उ°;
 *सवनो (न-उ) पस्पर्शन- स्थान°;
 *साव-प्रातर°; *रसाय- सहस्र°;
 *सुद- तीत्र°, सु°, सोम°, १सुत-
 यजुस्°, इषा°, अम्, सु°, सुरा°,
 सौत्रमणी°; *सुति- सोम°; *सुत्य-
 सुय, स्वा- १अ°, अण°, रीहा°,
 वीर्यमासी°, यावत्, रस्य°, संवत्तर°,
 सुत्वम्; सुन्वय- १अ°, अण्डु°;
 *सुन्वय-उन्व- आवाहनादि°;
 *सुय्; *सुय, पा- (राज्य°); *सुय-
 मान-, सोद-, १सोष्यत्-; ✓सु, सु
 (वषा.) अतु°, अण°, अभिप्र°, आ°

निस्°, परा°, परि°, प्र°, प्रतिप्र°,
 वि°; *रसवन-पुंस°; सवस्-सत्त्व°;
 *रसवित्-, *सविन्-, *रसल्य-;
 रसुव- गात्र विध ७८, ४०°[७, ७,
 ता- १अ°, अग्नि°, अग्नि°, २उरा°,
 कवि°××]; *सुवत्-; *सुवती-
 पुंस°, सुवन- सिप्रम्°, पुंस°; सु-
 १अ°, अण्ड, कर्षा°, १जीव°, १देव°,
 २धर्म°, परिहार°, पुंस°, पूर्व°,
 २वर्ष°, वीर°, स्त्री°; १सूत, ता-
 १अ°; सूतक- अण°, अन्ध°, एको-
 हित°, प्रह°, वातयूतक°, १मूत°,
 उव°, आढ°, सुतिष्य- वस्तुय-
 श्रम°, वरुणात्, नवपाद°, रसित°,
 सूत्र°, ध्व°, *सूतक-प्रेतका (इ-
 म)ना (न-आ) दि- १अतु°;
 रसूत- गो°, वण्डात्, २माक्षन्°;
 सूति- १देव°; *रसूत-; १सुतु-
 गाविन्°, जटहार°, प्रिय°, दम्°,
 ४त्, सित°, *सु (म >) मा- दु°;
 *रसूय; *रसु (र >) वा- स्त्री°;
 *रसूयमा (न >) ना-; *सूय (र >)
 री- १जीव°, वहु°; सोप्यती- छद्-
 दोन्°, *१सु-१अ°; *सु-ईष्यत्व-
 न्वाय भूर ७, १२८; सुतक्ष-
 धृतशर°; १सुकुर- १अ°, परि-
 ज्य°; सुकृत्-दुष्कृत्; सुकृत-
 > *सुकृत-इग्नि- १अ°; १सुप्र-
 १अ°, आचर°, प्रायुष°××;
 सौप्य-अस्य°, *सुप्र-प्रत्य-नारा°;
 *सुसा (य-आ) दि- जाति°, वहु°;
 *सुसा (य-आ) हरण- आलम्ब°;
 सुसिन्-अचर°; सुगन्ध- न्य°;
 राशी १२, १, ५; लारी ४, १, ५

सुगन्धि- > *सुगन्धि-गात्र- ४०°

d) नामे कर्त्तरि च ह्य। e) इ २६४६ वनि. संख्यासंज्ञितः द.। c) अर्थः म्यु. च।। d) = भोपाप-
 विशेषः। e) वैप १ द.। f) = पृथ-विशेषः। g) कथिक्तराज्येषु क्त्वि। h) सुसुप्रत् सुगन्ध- अभिप्रम् इति शीर्षे.।
 i) = वा १२, १४। इ १२१ इयं-> ईयं-एव इति नेष्टम्। j) नामे. वैप २, २०. सुगन्धः वै २२ इति. द.।

सुगन्धितेजस- गुग्गुलु°, शुग्गुलु°,
 गुग्गुलु°, वृत्तदाह°, धरमप°
 *सु ग्रीव- गर्दभ°, सुजात-उमलतप°,
 सुरभि°
 सुजात- १अभोवर्त°, देवोदास°
 सुन्- प्रम् √सु (अभिपेवे) परि द
 सुप्रामन्-> १सौप्रामण->°णि,
 णी- १अ°, लौपातुवावय°, चरक°,
 चाहुर्मास°, निःशहोम°, वाज्येव°
 *सु-दक्षिणा- अन्व्यान°
 सुन्दर- १हृष्य°, सुन्दरी- १शब्दां°
 सुन्वच्छब्द- √सु (अभिपेवे) परि
 द, सुपण- इन्द्र°, त्रि°, ४स°,
 हृष्य°, सोपण- अग्रतिरय°
 १सुप्रखन्-> २सुप्रखण्य- प्रसोह°
 प्रद्वर°, सुमग-> सौभाग्य-
 धन° रण°, ३सुमङ्गल- वामरथ°,
 सुमति- १देव°
 ३सुमनस- १दधि°, प्राणायाम°,
 ३सर्ग°, सुकल°, सुमन, मना- सु°,
 सविष्टि°, २सुयवस-> सौय
 यस्ति- सि शशी १५ २१, १,
 २४-२५ १, सौयवसायन- ना.
 सौशीर १५ ४°, १सुर- धान्य°,
 ६, पू°, सुरक्षित- १ई°, सुरत-
 १अ°, सुरभि- १दधि°, १देव°,
 ३रि°, रावे°
 *सुरसा- विष्णुली°, सुरा- १अ°,
 १यत्°, शम्भेय°, देवा°, सुराध्वज-
 शुभि-प°, सुगय- १अ°, ब्रह्मरत्न°,
 सुरयान- ब्रह्मरत्ना°, सुर्ये(रा-१उ)
 दम्- चान्दन°, सुराधस- अग्रा-
 रण°, सुराष्ट्र- अवि°, २वि न्ता°,
 २सुररूप- वार्गधवत्°
 सुपय- *धी- √सु (वधा) परि द

२सुवर्चला- १इन्द्र°, विष्णुली°,
 प्रद्वर°, १सुवर्णा-अधर्म°, १अष्टर°,
 कूर्म°xx, सौवर्ण- दन्त°, शौकाध°,
 सौवर्णा- लौह°, सुवर्ण (-रु)-
 चतुर°, बहू°, सुवर्णकार- अग्नि-
 शस्त°, अरीरास्त्री°, *सुवर्ण गुहा-
 ४स°, सुवर्णपशुदान- ब्राह्मण-
 भोजन° सुरर्णशकर- गुड°
 *सुवासिनी (वधा) - १अतिभि°,
 रजस्°, २सुवीर-> सौवीर-
 उपासू°, सिन्धु°, सौराष्ट्र°
 सुश्रुत->सौश्रुत- कुतप°
 सुविर- १अ°, कुलार°, ४स°
 सुशुभ्र वधा°, सौश्रव- प्रयोग°
 *सु-समाप्त- १अ°, सुस्वर- १सम°
 सुहित- १अ°, अति°, पूरण°,
 मुक्ता°, सौहाय- अति°, सुहृद्-
 >सुहृद्गान- ४स°
 १सुन्दर- कुम्भट°, ग्राम°, १मय°,
 मग°, रत्न°, सूक्त- १अक्ष°,
 अयमर्णल°, अञ्जनाक°, अतुकरि°,
 अनुवाक°xx, सूक्त(-रु)- अथाभि-
 घति°, सूक्तद्वय- पूर्ण°, सूक्तवाक-
 वनसाति°, सद्°, सूक्तवाक्शंयो-
 र्गर्ह°, सूनादि- वानरत्न°
 *सु (सु उ)क्ति- १हृष्य°, सूत्तम-
 अति°, सु°, सौदम्य- २स्वर°
 १सूच-> √सुचि > सूचक-
 कर्ष्य°, त्रैविष्टिकेद°, नक्षत्र°,
 ईरध°, १दक्षिण°, सूचि->
 २सूची- १दम्°, सूत्र- अशु°,
 १अर्थ°, भाषी°, उभा°, उर्णा°,
 ४रु°xx, सौत्र->सौशी- सौशी°,
 *सूच्य-वचस- वधा°, √सूद् नि°,
 २°, विनि°, सूद- १रत्न°, १हृष्य°,

सूदरोहस- तवादेवत°, ४स°,
 २सादन°, *सूत्रन, ना- धृत°, देवा-
 रियल°, १मधु°, मधुर्कटम°, सर्वाप°,
 १हृष्य°, १सू (न>) ना°- १कुव°
 २सूत- √सु (वधा) परि द.
 २सूतु- रैम°, सूनुता- प्रत्युधान°,
 वाच्°, सूण- पञ्जल°, विदल°
 सूम, मा- √सु (वधा) परि. द
 १सूय √सु (अभिपेवे) परि. द
 २सूय √सु (वधा.) परि द.
 १सूय-√सु (अभिपेवे) परि द.
 २सूय- √सु (वधा.) परि द
 १सूयमान- √सु (अभिपेवे) परि द.
 २सूयमान- √सु (वधा) परि. द
 सूयवस'-, सूरि- दक्षि°
 २सूर्य- इना°, इनि°, अघिर्इस°,
 अर्थास्तमित°, अविन्°, इन्द्रा°xx,
 २सौय, वा- अग्निभृद्°, आवित्वा°,
 बाह्रसभया°, रीद°, सान्नि°, *सूर्य-
 किरण- सप्तोड°, *सूर्य व (श्य>)
 इया- १अ°, १सूर्यरश्मि- वायु°,
 सूर्यसुय- अग्निष्टुट°, सूर्यानि
 निम्नस्त- उ°
 सूव(र>)री- √सु(वधा) परि. द.
 √सू अति°, अतिप्र°, वात्वा°, अशु°,
 अतारि°, अशुवि°, अना°, अण°,
 अण° अभि°, अग्निप्र°, अण°, अण°,
 २उद्°, उदा°, उण°, नि°, निण°,
 परि°, प्र°, प्रति°, प्रया°, नि°, व्यव°,
 सण°, सणुण°, संण°, *सर- अण-
 तम्°, अण°, १णक°, पुण्ण°, पूर°,
 सुणुण्ण°, सरिद°, १सरण- १अ°,
 *सरणी-सोम°, *सरय- सरिष्यव-
 *सर्दभ्य- , *सर्मन्- , *सर्वा-
 *सर्वाण- , सण्वस- , सणुपी-

0) प्राय उर. = २दक्षिणा. 1) वृ २६९२ '२सूयवस->सौ' इति नेष्टम् । 2) यनि रथल घोष ।
 d) वृ २६९१ 'वोवा' > यनि द । e) वृ २६९१ यनि. सत्यवायेव. द. 1 f) अट्वापरित प्राति द ।
 g) वृ २६९५ 'सुत्र->सु' > यनि. द. 1 h) भावापयं ह्य । 1) भावे शः प्र. 1

ससाण-; *सार- ४४०°,
 *ससारक-; *सारण-; *सार-
 (णि>)णी^{३०}- अ-वीप°, प्रतीप°,
 *सारवद्-; *सारित,ता-; *सारिन्-
 श्वाकन्द°, रसयम्°, *सारिणी- १अम°,
 रम्प°, घृत°, चालाल°, न्दुष्टु°,
 *सार्य°, *सार्यमा (ऋ>) णा-
 *सुद्- आजि°, १वात्र°, १सर्प°,
 १स°, सुव-, सति- भिम् > का°,
 १सु°, १सर्प°, *सु-य,सत्परी-, *सु-
 सुक- १एक°, सुगाल- इतिन्ध°,
 यत्, √सुज् अति°, अतु°, अनुद्°,
 अन्वय°, अरि°, अरिषि°, अमि°,
 अभिनि°, अभ्यव°, अभा°, अभ्युद्°.
 अत्र°, अत्रि°, आ°, रउद्°, उप°,
 उपाव°, नि°, निम्°, परि°, प्र°,
 प्रत्यपि°, प्र-पव°, अस्तुद्°, प्रोद्°,
 वि°, अतुद्°, सम्°, समत°, समुद्°,
 सर्व- १अ°, पुनर्°, वृति°, *सर्वम्,
 *सर्विद्-, *सर्व- पाणि°, *सर्वज-
 रम्भ°, *सर्वनी-, *सर्वनि-
 रम्भ°, *सर्वविवा, *सर्वित-,
 *सर्ववद्-, *सु-इति°, विश्व°,
 सज्ज-; *सुजमान-, *सुज्,
 *सुज्यमान-, सुष्ट,ष्टा- अमल प°,
 दन्द°, १देप°, पर्जन्य°, प्रजापति°,
 प्रसलति°,सष्टि- अवि°, *सुक्ष्मवद्-,
 *सुक्ष्ममान-, सज्ज- एप°, गन्ध°,
 अष्टा°, परितस्°, १पताव°,
 १पुम्भ°, सु°, १हरित°, हिरण्य°,
 *सुहृ-कुण्डला (ल अ)दुलीयक-
 पारिन्- रित्ण. वेष्ट ५, १३ १,
 *सुग् भ्रुलेपन- आनिम्°, *सुग्-
 दामन्- गन्ध°, *सुता- पुण्डरि°,
 *सुखै, *सुष्टु-, सुक्ष्प- >

साञ्जय- अभापतिद्°
 √सुप् अति°, अधि°, अशुद्°, अतु°,
 अनुपरि°, अनुप्र°, अनुसम्°, अप°,
 अपसम्°, अमि°, अमिनिम्°,
 अभिप्र°, अभ्यव°, अभ्युद्°, अव°,
 रउद्°, उप°, उगनिम्°, उपसम्°,
 उपा°, निम्°, परि°, प्र°, प्रति°,
 प्रतिप्र°, वि°, विनि°, विनिम्°,
 व्यव°, अतुद्°, सम्°, सन्धि°,
 समभि°, संभ्र°, सरीसृप- अहित°,
 *सर्पक-,सर्पण- बलन°, पवमान°,
 सर्पणादि- विकल्पन्त°, सर्पव-,
 *सर्पम्, सर्पिन्- उदर°, वीड°,
 *सर्पिणी-, *सुप्-, सुपस् (),
 सुष्ट-, *सुसि-, *सु-य, *सु-यवद्-,
 सुपस्व-
 सेरम् प्रसु √सिच् (परि) इ
 सेध- प्रगु √सिच् (परि) इ
 सेन,ना- अमिप्र°, १अरि°, इन्द°,
 इधित°, १उप्र°××, सैन्ध- ४स°,
 सर्व°, *सना(ना-अ,सि- सनाति°
 √सेध् आ°,उप°, नि°, परि°, प्र-वा°,
 वि°, तम्°, सेनक- राजन्°, शङ्क°,
 १सेवन्- १अश्वत्थ°, इन्द्राद्°,
 गन्धन°, चितापुत्र°××, सेवमान-,
 *सेववद्-, सेवा- १अश्वत्थ° तद्°,
 त्रिवर्ग°, पतनीय°, पूर्व°, प्रतिपिद्°,
 वाकातप°, स्वाभाव्य°, होन°, होन-
 वर्य°, सेविव-, सेविद्- अग्न्य°,
 अथेषा°, आपाद्°××, सेप्यमान-
 सेव- १परी°, २सेवन- √सिच्
 (परि) इ, सेपिध्व- √सिच्
 (परि) इ, √सो म-पव°, प्रन्वव°,
 अमि°, अव°, उदव°, नि°, निरान°,
 पर्वव°, प्रत्यव°, वि°, व्यव°, सुपस्व°

समन°, *सान-, *साय, *ससाय-,
 *सायिन्-, *साय्य, *ससित-, *सै,
 *स्ता-, *स्य, *स्यव्-
 सोम- १अ°, अमोत°, अमि°, अमी°,
 अमिरिक्त°××, सोमिक- ऐष्टिक°,
 १सौम्य,ग्वा-२अपर°, अमिजित°,
 आग्नेय°, ऐन्द्रावराव°, ऐन्द्री°,
 वृतिना°, वीष्णु°, २वायव्य°,
 वेरिदेव°, सवनीय°, साभित°,
 सोमकृपणी- ४स°, सोमप- १अ°,
 सोमपात्र- प्रावन्°, सोमपीथ-
 आपि°, अविच्छिन्न°, विच्छिन्न°, सोम-
 पूर्व- १अ°, सोमपाजिन्- १अ°, अमि-
 चित°, सर्व°, सोमवाग्निन्- अमि-
 चित°, सोमपिकविन्- कर्द्व्य°,
 कुण्डलिन्, तस्कर°, सोमातिपूत-
 अमिचित°, *सोमैक- १अम्°
 २सोमन्- २अमन्°, हकार°, सोमो-
 धान्- सर्व°, √सम्,न्द् अति°,
 सधि°, अमि°, अत्र°, आ°, रउद्°,
 परि°, प्र°, वि°, सना°, *सुसुन्द-
 रेतस्°, *सु-एप-, सुन्दन-
 उजीतसर्व°, जाम्बीत°, पुपदाज्य°,
 देतत्°, सोम°, *सुन्दम्; *सुन्द-
 यद्- १अ°, *सुन्दुपिच्य, *सु-
 दिन्-, *सुन्द, सुन्न घा- १अ°,
 अतिपक्°××, १सुन्द-पानन्त°
 सुन्ध- अतिरजन्°, २असित°,
 १दक्षिण°, २रेदि°, धोणि°, सुन्ध-
 वाता-परुद्, √सुभृ,म्भृ,कमि
 (त>)का,सुग्भ- वि°, *सुग्भा
 (मन्-भ)प्याम-मन्त्रोच°, सुग्भन-
 १अ°, √सु प्रति°, *सुगत-
 दन्त°, *सुत-; *सुधोयु- १अ°
 √सुप्रल् प्रति°, *सुप्रल- १अ°,
 *जी- इति स्वार । ०) पृ १९९० -नीम> नीनाम्
 १) वेष्ट १६ । ८) पृ २००० यनि संख्यासंकेत. द. ।

a) पूर्वरी न्युद् प्र इति ङ्गा सारल- > इति द. ।
 c) अथिराज इव (पृ ७६५ i) ।
 f) = प्रमा- । g) पृ २०१३ यनि संख्यासंकेत. द ।

*स्वलन- दन्त°, *स्वलित-
 √स्तन् अन्°, कनि°, अगिनिम्°,
 निम्°, *स्तान्-; स्तनविन्दु-
 घमि°°, श्वर्ष°°, निधुव°, स्तनित-
 अग्रमार°, प्रहान्तर्गत°, १घोर°,
 वोदाव...द°xx, *स्थान-
 रस्तान°- १अ°, १दृष्ट°, १एक°, चतुर°,
 रि°, द्वि°, स्तनकल्प- अनारभ्य°
 √स्तम्, म्स् अगिभम्°, अन्°,
 उरुद्°, उर्ष°, निम्°, प्रति°, वि°,
 सम्°, स्तम्भ- *स्तमि(त>)वा-
 *स्तम्भुक्त्-, *स्तम्भ, *स्तम्भ-
 मान-, १स्तम्भ- १दक्ष°, अग्नि°,
 इन्द्र°, इदली°xx, स्तम्भन-, *नी-
 रस्तम्भ- अर्जुन°, आदार°, अतीव°,
 ओषधि°xx, स्तरी- धेनु°
 स्ता- √तो (परि.) द, *स्ति-
 व्प°, स्तिमि°- न्यमोष°, स्ति-
 मिक- १अ°, *स्तिमिनी°-
 न्यमोष°, स्तीत- प्रष्ट. √स्वै
 (परि) द, √स्तु क्ति°, अन्°,
 अमि°, अमिभम्°, आ°, उर्ष°, नि°,
 परि°, प्र°, शर्ष°, वि°, सम्°,
 १स्त्व- अण्वत्- अन्°, प्रात्मान°,
 इज्या°, ओषधी°, गुरु°, देवपत्नी°,
 राशि°, स्वयन्-नपत्य°, नामादेह°,
 स्वस्तन°, स्वयान-, स्वाय- द्वि°,
 *स्वाय, स्वाम्भ-, *स्तु- अग्नि°,
 इन्द्र°, प्रायन्, गथा°, विस्तदन्°, विसे
 देव°, वैश्वदेव°, सु°, रसुर्व°, स्तुव,
 वा- १अ°, अग्निभक्ति°, इन्द्र°xx,
 स्तुवनास्त्र- १अ°, वृष्ट°, स्तुति-
 १अध°, अम्ना°, अदेस्ता°xx,
 *स्तुप, स्तुप-सवत्, स्तुपद्-,
 *स्तु- आयत्त°, *स्तुव, स्तुपमान,
 वा- १अ°, स्तोत्र- प्रायश्च, स्तोत्र-

१अ°, अग्निष्टोम°, अग्निष्टोमीव°,
 अन्वद्यावा°xx, *स्तोत्र-भूत-,
 *स्तोत्र-स्थान- १अ°; स्तोत्रिय-
 १अ°, अग्निप्लव°, १आज्य°xx,
 स्तोत्रीय, पा- १अ°, १अमीवत्°,
 आर्षम्°, उक्थ्य°xx, स्तोत्रोपाकरण-
 ग्रहण°, प्रस्तर°, स्तोम-अश्वाया°,
 अग्नि°, अग्निष्टोम°, अग्ने°,
 १दृष्ट°xx, २स्तोमभाग- एष्टान-
 रिगत°, स्तोमयोग- १अ°
 स्तुक, का- अन्विद्धव°, कर्णा°, रक्षेत्°,
 छिन्न°, ज्यवा°, १धुम्°, १वाल्°
 √स्तुम् अन्°, अग्नि°, आ°, वि°,
 परि°, ज्यव°, स्तुब्ध- १धनुपद°,
 शापन्त°, स्तुम्- १अर्क°, वि°,
 सु°, स्वोभ- १अ°, उभयत्तम्°,
 पञ्चविंशति°, पद°, पदवत्°, पुरस्तात्°,
 स्वोभन-, स्तूप- अगार° दिरण्य°
 √स्तु, स्तृ (आच्छादने) अगिनि°,
 अधि°, अन्तुप्र°, अग्नि°, अग्निपरि°,
 अन्व°, आ°, उर्ष°, परि°, पुर्यप°, प्र°,
 वि°, व्यन्°, सम्°, संपरि°, *स्तर-
 १दृ°, १स्तरण°- प्रहण°, बर्हिस्°,
 जेवन्°, रेवेद°, रेवेदि°, १स्तरिष्यत्°,
 स्तरीतम्°- सु°, *स्तार-, *स्तारम्,
 *स्तिके°, स्वीर्ष-, स्वीर्ष, स्वीर्ष-
 माथ-, स्तृष्य- १अ°, *स्तृणवी-,
 *स्तृणान-, १स्तृव- १अ°, *स्तृथ
 √स्तु, स्तृ (द्विधावाग्) अन्°, नि°,
 *स्तिवतीर्षा°- २आतृष्य°, *स्त-
 रण°, *स्तरीष्यत्-, स्तृ- लानन्°,
 गेम्°, √स्तृ > *स्तृषण- १अ°
 स्तेन- १अ°, गण°, पो°, विचित्रवृत्°,
 अग्रहन्°, १धुवर्ष°, हिरण्य°,
 स्तेन्य- १अ°, १धुवर्ष°, छोरज.
 तवो°, स्तेय- १अ°, तद्, निक्षेत्°,

प्र°, प्रह्वन्°, प्रह्वहर्षा°, स्वन्°,
 १धुवर्ष°, *स्तेयिन्- तस्कर°
 स्तोक्- १अ°, १अध°, १आज्य°,
 उपप्रेण°, पर्वति°, प्र°
 √स्त्वै नि°, प्र°, सम्°, *स्तीव-,
 *स्तीवत्-, *स्तीम-, *स्तीम-
 वत्-, *स्त्वान-, *स्त्वाप-
 स्त्री- १अ°, १अनित°, अन्वा°, २अम्भ-
 वर्ष°, अरीर°xx, स्त्री(क)- १त्°;
 स्त्रीगमन- १मधु°, *स्त्रीग्राम-
 याजक-स्तेन°, *स्त्री-दर्शन-स्तरण-
 उपपान्मुस्तान°, स्त्रीमघ- अपन्ना-
 गमन°, स्त्रीवासस्- उदकात्र°,
 स्त्रीविषय- १अ°, *स्त्रीविषय-त्व-
 अन्वयत्°, *स्त्यु(स्त्री उ) पाविन्-
 १अ°, *स्त्विकर-स्तु, स्वष्टिडल-
 दृष्ट°, बालुका°, स्व्यपति- निपाद°,
 रस्त°, रस्थल- उर्ष°, १उ°,
 १रूल°, क्तु°xx, स्वसी- अह°,
 अन्नक°, १धोव°, दारुणायन्°, मद्रक°,
 मद्रुक्°, १माय°, राजन्°, १सम्भ°,
 *स्त्वल-वृक्षा(क्ष-आ)स्त्व- त्वद्वत्ता-
 र्यागुप°, स्थविर- १प्रतिवि°;
 कुद°, दुषव°, √स्था अति°,
 अग्नि°, अथा°, अन्°, अन्वप्रति°,
 अन्वत्तम्°, अन्वद्°, अन्व°, इन्द्र°,
 अन्वा°, अन्°, अन्वुद्°, अग्नि°,
 अग्निप्र°, अग्निभम्°, अन्वुद्°, अन्व°,
 आ°, उरुद्°, उर्ष°, उर्षा°, उर्षोद्°,
 नि°, निम्°, न्यधि°, परि°, परिनि°,
 परिनिसु°, परितम्°, पर्वव°, पर्वु°,
 प्र°, प्रति°, प्रतिप्र°, प्रत्यद°, प्रत्युद्°,
 प्रत्युप°, वि°, विशर्ष-, व्यन्°, व्याव°,
 तम्°, समत्°, समी°, समुद्°,
 स्तुव°, पश्चिध्वत्-, तिष्ठत्-,
 तिष्ठन्वी- १अ°, तिष्ठमान-

ॠ भाष. १) ४ २७१५ यनि. कर्कपावकित. द. १. ८) वैप १ द. १. ८) नाप. (परस्तवत्) १.
 ८) ४ २७२१ यनि. कर्कपावकित. द. १. ९) ४ २८१४ अत्य अग्निदेव. द. १.

२स्य, स्या- ३अ०, अक्षर०, अत्रि०, अत्रासन०, अशु०, अनन्त०, अनेकाभि-
 परण०xx, १स्था०-अशु०, गन्धर्व०,
 गद०, १गिरि०, पर्व०, पशु०, २मेधि०,
 वन्धुर०, सव्ये०, १हरि०, १स्था०-
 स्याणु- तीर्थ०, सना०, स्यावु-
 १सव्य०, स्यातोसः(ः), स्यात्र- १भूरि०,
 स्यान- १अ०, २अक्षय०, अक्षय०,
 अत्रि०, अक्षनीपोनीव०xx, स्याव-
 वरण- २समान०, १स्व०, १स्थान-
 कर्मा(ण-आ)स्वप्रयत्न- २समान०,
 स्यावासन- अक्षय०, जित०, १स्था
 वा(व आ)सन-दिमा (म आ)तप-
 जित०, स्थानिन्- > श्री- १अ०,
 १निवच- १अ०, १निकटाय- रूप०,
 १प्रतिवेध- सयोगोपधासज्ञा०,
 १स्थानीय- पुत्रा०, १स्थापव-
 १स्थापन- पूर्वमर्थादा०, प्रजा०, १स्था-
 पम्, १स्थापयव- १स्थापयितृ-
 स्थापयित्वा, स्थापितव- १स्थापि
 (व.)वी- १स्थाप, स्थामन्-
 ०पाठ०, १स्थाय, स्थापिन्- कर्ण०,
 १गिरि०, गो०xx, १स्वावव- स्या-
 वर, रा- १अ०, जत्रम०, मन्वान्त०,
 स्यात्परजङ्गम-भूतप्राम०, स्यास्वव-
 स्थित, ता- १अ०, अन्त०, असूत-
 जात०, १उरु०, एकपाद०xx,
 स्थितोपस्थित- स्थिति०, स्थिति-
 यद्, मुञ्जुलाय०, सदा०, स्थिर-
 १अ०, गति०, युधि०, १स्थु०-
 १स्थु- १सव्य०, स्थेय, या- मन्वम०,
 १स्थेया(य-आ) रुषा- प्रकाशन०,
 १स्थेयस्- १अ०, २स्वोच्छ- १कता०,
 १मधु०, हिरण्य०, स्थाली- अग्निहोत्र०,
 अन्तादाय०, आमरण०, १प्रामाण्य०,
 ३आज्य०xx, स्थालीपाठ- अन्वयक०,

आग्नेय०, आग्रयण०, ईशान०, उष्ण०,
 ४स०, होम०, √स्थु > १स्थुण्,
 पा- अगार०, १गयम्, १अष्ट०,
 १खर०xx, स्थूणाराज- २धर्म०,
 १स्थूल- १अ०, अन्वय०, स्थौल्य-
 कनीन्यप्रसम०, १स्व०, दुषि०

स्थुरि- १अ०

√स्ना अवि०, अन्वय०, अ०, आ०,
 २उद्, नि०, प्र०, प्रति०, वि०,
 सम्, स्न- नदी०, स्नपन- रौद्र-
 होम०, स्नात, वा- १अ०, आर्तव०,
 अशु०xx, स्नातक- आचार्य०,
 चायिन्, १देव०, पित्रुष्व०, १वात०,
 राजर्, विद्या०, विद्याप्रव०, २वेद०,
 प्रत०, १स्नातृ-; स्नान- अर्थ०,
 अक्षय०, उद्घृत०xx, १स्नात-
 यव होम- > १निन्- १अ०, स्नानो-
 दक- तद्, निष्कृत०, स्नान-
 उच्छिद्यमान०, प्रसापन०, १स्नाय,
 १स्नापिन्- निपन्न०, नित्य०,
 प्रातर्, यदिसू०, सव्या०, स्नायु-
 अस्थि०, √स्निह् नि०, प्र०,
 सिन्ध- १अ०, उदवि०, निर्मल०,
 विमत०, सु०, सिन्धु- स्नेह-
 १अ०, अतलीकु- ई०, अन्न०,
 उद्घृत०xx, १स्नेह-परिच्छुत- छव०,
 १स्नेह-शुक्- १अ०

√स्तु प्र०, प्रोष०, १स्नान- १स्नावि
 (व.)वी- १स्तु, वा-

स्तु- शत०

स्तुपा- मातृजानी०, मातृत्वय०, सु०
 √स्पन्द् परि०, १स्पन्द- अक्षि०,
 १स्पन्दन-अक्षि०, १अ०, १स्पान्द-
 स्पन्द, पा- अशु०, अ र्द्, यदिसू०
 √स्पर्ध् वि०, १स्पर्धन्- अवि०,
 स्पर्धमान- १स्पर्धन्- स्पर्धा-

तपली०, √स्पष्ट् अशु०, प्रति०,
 नि०, १स्पष्टान- १पञ्चाशयमान-
 १स्पष्ट- स्पष्ट- साशन-

√स्पृ अ०, १स्पर्ण- आत्मन्,
 १स्पर्त्- स्पृत्- स्थ०, १जोक्,
 स्पृति- १देव०, √स्पृष्ट् अक्षि०,
 अवि०, आ०, उ०, उ०, उ०, उ०,
 प्रति०, प्रत्यु०, सम्, सतु०, स्पर्त्-
 १अ०, अक्षि०, अशुवि०xx, १स्व-
 शैक- स्पर्शन- अग्नि०, अन्त्यज-
 य-दि०, अन्वय०, अशतो-
 श्व०xx, १स्पर्शवत्- १अ०, स्पर्श-
 विरवा, १स्पर्शि (त) वा-
 १उद०, १स्पर्शिवत्- प्रेत०, १स्पर्श-
 १स्पर्श- द्वितीय०, प्रथम०, स्पृष्ट-
 अन्तारिक्ष०, असपत्ना०, धानव्,
 उपरि०xx, स्पृशव- १अ०, १स्पृष्टे,
 स्पृश्य, स्पृश्य- १अ०, स्पृष्ट, धा-
 १अ०, १अत्र०, ईपत्, उदक्या०xx,
 स्पृष्ट- तद्, पतित०, स्पृष्ट्या
 १अ०, १स्पर्ष्ट- √स्पृह् >
 १स्पृह- १शु०, स्पृहवाहु- १अ०,
 स्पृहा- १अ०, नि०, स्फटिक-
 हुतकनक०, गुत्था०, १गुत्थ०

√स्फाय् सम्, १स्फाय- १गय०

स्फिका- अ०, १स्फिक्- मन्त्र०

√स्फुद् अ०, अ०, वि०, १स्फुट-
 स्फुटित, वा- मद्र०, १स्फुट्,
 १स्फन्दन०, स्फुटिताहुति- १अ०,
 १स्फोट- अनागिनचन०, स्फोटन-
 नवाचक्रन०, √स्फुद् अ०, अ०,
 अ०, नि०, निम्, प्र०, प्रति०,
 दि०, व्या०, स्फुरण- स्फुरत्-
 १स्फुन्वी- √स्फुज् नि०, निम्,
 वि०, स्फुटि- √स्फुज् अवि०,
 अ०, वि०, १स्फुज्-

a) वृ २५२९ अत्र यत्नि सख्या देया । b) विक्रान्तम् । c) भावे कृ २ । d) वै १ २ ।

*स्फूर्जक- न्यत्रोव^०, स्फूर्जत्-

√स्फूर्ज्(परि)द्र, स्फोट-√स्फुर्
(परि)द्र, स्फ्य- १ल^०, २उड^०,
१एव^०, चत्साली^०xx, स्म^० १३^०

√स्मि प्र^०, वि^०, *स्मय-
स्मयन- विहृत्^०, स्मित- २सित^०,
त्वान^०, √स्मृ अतु^०, उप^०, प्रति^०,
वि^०, सम^०, स्मय(वश)- जाति^०,
१भाप^०, स्मरण- वाक्य^०, स्मरत्-
१श^०, *स्मार्त्-^०, *स्मारण-
स्मृत्- १अ^०, स्मृति- १अ^०, २श्या
गम^०, अचार्य^०, शार्पणोत्र^०
यावत्, वेदाद्र^०, १शिक्ष^०, धृत^०,
स्मार्त्- १धौत्^०, *स्मृथ

स्य,स्यत्- √सो(परि)द्र

√स्यन्द्(पथा) डतु^०, अ^०, अमि^०,
प्रतीति^०, अ^०, आ^०, २उड^०, नि^०,
परि^०, परिप्र^०, प्र^०, प्रा^०, वि^०,
सम्^०, *समिच्यद्-^०, *स्वद्-
रतु^०, *स्व-द-^०, १स्वन्दन- १द्र^०,
१पलाद^०, *स्व-दन्(म-आ)त्ता
शिव पठित स्फुटित- हावत्^०,
*स्वन्दत्, स्वन्दमल-^०, *स्व-द-
यत्-^०, *स्व-द्विचिन्ता, *स्व-द्वि-
*स्व-दी-^०, *स्वन्ता, *स्वच-

स्र- √य(परि)द्र, √स्रस् परि^०,
प्र^०, वि^०, *स्र- आस्व^०, ससन-
गम^०, १च^०, *स्र(सिक्)>सिका-
*सति(रु)>नी-^०, *सस्य, *सस्य-
प्रस्य-रादत्^०, *सस्य, *सस्यमान-
स्रक्ति- स्रत्^०, आसन्ताराश^०,
आभन्त्, १पुण^०xx, *सस्यव-
१पगम^०, स्रयत्- प्र २ √य^०
(परि)द्र, √स्रम्, *स्रय-
*स्रिमन्- वि^०, स्रथे √द्र
(पर)द्र, स्रस्तर- डत्^०

स्राम मा- १अ^०, *√स्रि वि^०

√स्रिघ् > स्रिन्-^०, *स्रिधत्- १अ^०
√स्रिघ् आ^०, *स्रीवि^०, *स्रोमन्-^०

१अ^०, √स्रु अति^०, अतु^०,
अन्यव^०, अ^०, अमि^०, अमिदिन्त्,
अमिप्र^०, अ^०, अयप्र^०, आ^०, २उड^०,
उप^०, नि^०, निन्त्^०, परि^०, प्र^०,
वि^०, वव^०, सम^०, समव^०, सैप्र^०, स्रव-
श्रमिहोम^०, धीर^०, स्रवण- १अ^०,
१अथ^०, गर्भ^०, १मेध^०, १स्रवद्-
*स्रा(<स्र)- स्रात्-गर्भ^०, १जल^०,
१मपु^०, १हस^०, रेतस्^०, १वाल^०,
सुरा^०, स्रावयत्-^०, *स्रावित- १अ^०,
*स्राविन्-^०, *स्राविणी-^०, स्राथ,
*स्रुत्- १अ^०, स्रुत्-^०, *स्रुत्
हार्त्- १अ^०, स्रुति- स्राधाव^०,
१जल^०, हविन्त्^०, *स्रुय, स्रुव-
२आज्य^०, उत्तम^०, १एव^०xx, स्रौव-
दीन^०, *स्रुय-प्रासन- होम^०,
*स्रुवा(व अ)मिहोम- प्रोक्षथवन-
यन्^०, स्रुवाहृति- इष्ट^०, नाना^०,
*स्रोत्-^०, स्रोत्- मो^०, १नासिका^०,
सु^०, *श्रोतस-

स्रुच्- चर^०, चरत्साली^०, १दर्म^०,
दर्व^०, पश्चात्^०, १यत्^०, सुक्त^०,
रह^०, सुक्तमात्रेण- आज्या
पिथनय^०, परिसररु^०, रिप्रीत
दमास्तरथ^०, *स्रुग् भेद्- उशत
- न^०, *स्रुह^०- वि^०

स्रोत्->सेक्यन्- स्रेन^०, स्रोत्-

√स्रु(परि)द्र, स्रोमन्- √स्रि
(परि)द्र, *स्रुत्- मूत्^०
२स्व- १अ^०, कला^०, माचार्य^०, नि^०,
१प^०, प्रति^०, प्रद्वन्^०, २प्राज्ञण^०,
वपा^०, मान^०, रात्र^०, राजवत्प्र^०,
वि^०, स्र^०, स्र^०, १स्व^०, १स्व

पाल-^०, *स्व-ग-^०, स्वतन्त्र-^०, स्वा-
तन्त्र्य-^०, स्वतन्त्रता- १अ^०, स्व
वपस्- इष्ट^०, स्वय- १प^०,
स्वप्रधान- १अ^०, स्वभाव- मूत्^०,
मिधस्मन्^०, विद्व^०, २स्वयोदि-
१अ^०, स्वराज्ञ- भुरिज्^०, विराज्^०,
सघ्रात्^०, *स्व लिङ्ग-यथा^०, स्वल्पा-
परप्राज्ञत्^०, पूर्व^०, स्वस्तर- न^०,
१मूत्^०, सभा^०, स्वस्तोत्रीय-^०, स्व-
स्तोम-^०, स्वस्थ- > स्वास्थ-^०,
१स्वस्थान-^०, २स्वस्थानस्थ-^०, स्वाङ्ग-
१अ^०, स्वामिन्- गो^०, जगत्^०, तद्^०,
परम^०, पशु^०, हविन्त्^०, स्वामि
(ड)- १अ^०, प्रनष्ट^०, प्रहो^०,
स्त्री/कृ > स्वीचरण- भन^०,
२वे^०, स्वैरिन्- १ल^०

२स्व->स्वाध्याय- अतु^०, इत्यदि^०,
शक्ति^०, नित्य^०, शिक्षावरण^०,
स्नान^०, होम^०

१स्वङ्ग^०, √स्वङ्, ड्ज् उप^०, पा^०,
*स्रस्ववा(न>)ना-^०, *२स्वङ्-
*स्वङ्ग-^०, *स्वङ्गत्-^०, *स्वङ्गन-
*स्वङ्गमा(न>)ना-^०, *स्ववे,
*स्वव्य √स्व स्वार्ड् इष्ट^०, आ^०,
सम्^०, स्वदित्- पथिना^०, स्वात्-
आप्त^०, *स्वार्द-^०, स्वार्दन्-^०, स्वाहु-
सु^०, स्वादिष्टा- उचवाता^०, स्वर्धा-
अतु^०, उदहार्मन्^०, १विण्ड^०, ४ति^०,
स्वार्हा^०, *स्वधा-युक्त- १अ^०

स्वधिति- सुव^०, स्व^०

√स्वन् अतु^०, अ^०, अ^०, अ^०, आ^० नि^०,
पा^०, वि^०, १स्वन्- अ^०, अ^०, अ^०,
गजेद्र - ए^०xx, *स्वनिव- निरप्र^०,
१स्वान-^०, √स्वप नि^०, १म^०,
प्र^०, वि^०, सुप्- सु^०, स्वपद्- १अ^०,
स्वप्न- १अ^०, अ^०, १आसन^०,

a) = १। विवेक-। b) = अन्वय-। c) चरुण पन् प्र । d) वेप १ ५०६ ३ द. । e) वेप १,
५०९ ६ द. । f) वेप १ द. । ह) नाप (सिष्)- । h) वृ २०५६ यनि चत्सालीने. द. ।

पयस्यन्^०xx, स्यन्^०xx, स्वप्स्यन्^०
 १अ^०, स्त्वा^०xx, स्त्वाय^०(त >)
 न्त्वि- सु^०, स्त्वापिन्- दिवा^०,
 आदाय^०, स्त्वापिन्- स्वय- >
 स्त्वय दुरण- उपानह^०, स्यन्कृत-
 १अ^०, स्यन्कृत- वानोन्^०, स्त्वय-
 दृष्ट- १अ^०, स्वयमात्पुष्पा-विकर्णी^०,
 स्त्वय-पृष्ट- १अ^०, स्वय- नाना^०,
 रसमान^०, स्वर्ग- १अ^०, अनन्त^०,
 स्त्वर्गो (म-ओ)वता (न अ)सि-
 मन्त्रोक्त^०, स्वर्ग- १अ^०, स्वर्ग-
 > स्त्वर्गो स्तोत्र- ब्रह्महत्या^०, वस-
 त्^०, स्वयस्य- दृष्ट^०, स्वस्य-
 पितृ^०, पितृस्त्वयमात्पुष्प^०, महत्^०,
 मातृ^०, मातृमातृ^०, रमातृ^०, सतृ^०
 स्वस्ति- १अ^०, बृहत्पुत्रकृत^०,
 १अ^०, स्वस्ति- १अ^०, शीघ्र^०,
 स्वस्त्व- भद्र^०, स्वस्त्वयन-
 आत्मन्^०, आयुष्य^०, आर्तव्य^०xx
 स्वस्तिक् (यथा)- तिमिर^०,
 प्रतिरार^०, पविष्ट^०
 स्वाति- ज्ञातव्य^०, पवित्रा^०
 स्त्वायोचिप- > शी(प ओ)तम-
 न्मत् शेष ११६ ४५०, स्वाहा-
 > स्वाहा / कृ > कार- १अ^०,
 अन्त^०, अन्ते^०, रक्त^०, प्रति^०,
 ४अ^०, स्वाहा-भारव द्विस्, स्वाहा
 हृति- उपरिष्टा^०, पुरस्तात्^०,
 स्वाहाहृय १अ^०
 स्विद् आहो^०, विम्^०, स्विद् २उद्^०,
 ४^०, सप्^०, स्विन्- १अ^०, सखा
 सोचविधि^०, स्वेद- श्व^०, स्वेद-
 १पाद^०, स्विष्ट- > स्विष्ट-
 हृत्- आम्बरमाग^०, उपश्रेय^०,
 १अ^०xx, सोविष्टकृत- वेत^०,

स्विष्टकृत् (क)- स्त^०, स्विष्ट-
 कृदिष्ट- नैरा^०, पयस्या^०, स्विष्ट-
 कृत- अथिष्ट^०, √स्वृ अति^०,
 अथन्व^०, क्तु^०, अमि^०, अमिसम्^०,
 अय^०, अयसम्^०, उय^०, नि^०, परि^०,
 ४^०, सप्^०, रस्वर- न पात्रा २
 १, १ [१ १अ^०, अक्षर^०,
 अक्षरवर्ण^०, अक्षरान्तप्र- ति^०, अयु
 स्तार^०xx], स्वरभक्ति- अयुस्तार^०,
 अर्थ^०, स्वर-रेको (क-उ)पथ-
 परकम^०, स्वरयचन- द्वितीया^०,
 स्वरयण^०- रज्जुमन्^०, स्वर विकार-
 १अ^०, स्वरसामन्- अभिजित^०, शृण्व^०,
 वैद^०, रत्नस्तार^०, स्वरादि- १अ^०,
 स्वरित- अन्वय^० आदि^०, उच्च^०,
 रवद्^०, उदात्त^०xx, स्वरिताय-
 १अ^०, रस्वर- रस्वार- अतीत^०
 अन्वय^०, नोव^०xx, स्वार
 कौत्स- इवास्तार^०, स्वार-

हृ

हृ-> हृ- १अ^०, हृ इति^०, १हृ-
 २अ^०, व^०, तु^०, १व^०, १र^०, १ल^०
 १अ^० रस्व^० हकार- १अ^० अथर्व^०,
 नकार- नारायोप^०, रेफ^०, २हृ-
 √हृन्(वार) इ, हृस- उपायतो
 रत्न^० वक्त^० कर्त्तविकृ^०, १अ^०xx
 हृस कारण्यथा(व-आ)दि- गपृ-
 चक्रवार्तादि^०, √हृन् अति^०, अति
 निद्र^०, अन्वय^० अन्व^०, अन्व^०,
 अन्वा^० अय^०, अथा^०, अयोद्^० अमि^०,
 आभान^०, अमिदि^० अन्व^०, अन्^०,
 अयद्^०, उदा^०, उप^० उपान^०, उपसम्^०
 उपा^० नि^० निद्र^० निद्र^०, परा^०, परि^०,
 परिण^०, परिनिद्र^०, प्र^०, प्रणि^०, प्रति^०,

प्रत्या^०, वि^०, विनि^०, निपरि^०, न्वव^०,
 न्या^०, सनि^०, सप्^०, समुद्^०, समुप^०,
 र्द्व- ताड^०, पाण^०, राजन्^०,
 र्धन- अन्व^०, १अय^०, दु^०,
 स्तम्भ^०, र्द्वघाट- घात- १अदि^०,
 कले^०, प्राभीण^०, पितृ^०, प्रजायतन^०,
 मातृ^०, राहु^०, र्द्वय^०, शुक^०, १घातक-
 १अ^०, राजन्, घातम् सगृह^०, प्राति-
 घातिन्- १अदि^०, आत्मन्^०, आरप्य-
 पृष्ठ^०, १कुमार^०, गणास्वाष्ट्यो^०, प्राम्य-
 पृष्ठ^०, दुष्टपृष्ठ^०, पक्षि^०, १अस्य^०xx,
 घातुक- १ताय^०, १वान^०,
 १अ^०- अलक्ष्मी^०, १अक्षर^०, क्वाट^०,
 १कृत^०xx, १अ- १अ^०, १अन्त^०,
 जमि- निचासत्- १निचासमान-
 १जिघासा- आत्मपाप^०, निघासु-
 परस्पर^०, राष्ट्र^०, १रह^०- अह^०,
 अमिमाति^०, र्द्वमातृ^०, इव, ता-
 १अ^०, १अक्ष^०, अन्वन्वा र्द्व^०, अन्व-
 जने^०, अमि^०xx, हृति- १वृ^०, १न^०,
 १कृत्^०, धनु^०, १हृय, १हृत्य- अमि^०,
 अस्व^०, १अदि^०, १न^०, वैर^०, अम्बर^०,
 १हृ-वा- १अ^०, अनागम्^०, अद्रव^०,
 सुष्ण^०, वैश्व^० शूर^०, दावा १अ^०, १हृ-
 अमिमाति^०, १अन्वयन^०, अमिन्^०,
 अमीन्^०xx, १श्री- अय^०, अह^०, अर^०,
 दु^०, पति^०, पारावत^०, पुन^०, प्रजा^०,
 १अक्ष^०, १र, शी^०, सत^०, हृन्-
 आत्मन्^०, धृष्ण^०, ४अ^०, शेना^०,
 १हनय- आ^०, १हृन्वै, हृन्वय-
 १अ^०, हृन्वय, हृन्- आचार्य-
 मातृपृष्ठ^०, क्षिप्र^०, गो^०, रुप^०, अरसा-
 यत^०, द्वा^०, ह-वोच (), १ह-मन्-
 १पृष्ठ^०, १हृन्- आ^०, हृन्वयान-
 १अ^०

a) वैप १ द । b) न्यव (मन्वन्तर-) । <स्वोचिप- इति चक MW । c) वनाहोरे इत्य उय.
 <उचम- (न्यव [मजु १]) । d) अयु २१९, १४० वमी- इति । e) स्वत । f) वृ २००५ यानि पथ्यासवेत्.
 द । g) वृ २०४४ अथमपि पतिरेव । h) वृ २०४५ अथ पतिरेव । i) वृ २०४६ इति ।

√हन् (*आच्छादने) > १ वात्-
 १ नीव, हन्- हन- √इन्
 (परि) द्र, हनु- ओष्ठ, डुद्,
 परि, नि, क्कट्ट, हन्तवै,
 हन्मन्-हन्व- √इन् (परि) द्र
 ह्य- ३ खर, १ देव, २ शिव
 हृरि- अमल, १ पा, १ युक्त,
 हरि (-क) का- १ अ, हरि
 योजन-> हरियोजन- सावित्र,
 हरिव- इन्द्र, २ हरि- √ह
 (परि) द्र, हरिण- अश्व,
 १ व, हारिण- एण, हृरित-
 १ पुण्य, १ रक, १ युक्त, हृरित
 धान्य- १ व, हृरित-पुण्य- युक्त
 पुण्य, २ हरि L री ज्ञ-> हरि
 L हारि/क- १ कुमार, कृ, कौस,
 गौतम, हृरितकार्य- जिज्ञा
 फाल, हरिताल- ज्वलन
 हरिद्रा- घेम, हारिद्र- गालिष्ठ
 हरिद्रु- न्यबोध, हर्तवे प्र
 √ह (परि) द्र, हर्म्य- द्वार
 √हर्ष्य प्रति, वि, हर्षणी-
 हर्षिन्- √इन् (परि) द्र, √हर्त्
 म्, डुद्, १ हल- १ अ, २ व,
 १ लाटल, १ हलि- १ अ, १ युक्त,
 १ हल- हु, २ हलि-> हलेय-
 १ अ, हृरिलिख- नि, हृरिवन-
 १ अ, अमि, नक्षत्रगत, २ व,
 ३ रोहिण्य, हृरिनी- वला, वला
 होम, हृरिवन-काळ- प्राहुप्रण
 हृरिवन- √हे(परि) द्र
 √हृस् अमि, अय, उय, परि, प्र,
 नि, व्यमि, सप्र, हसन्- १ अ
 अन्त् हसन्- इतिव- मिष्टीकित,

हास- निर्मान्, मूत्, ह्रास्य
 हृस्त- १ अ, १ अय, अथि, अय,
 अमुक xx, हस्त(-क)- अय,
 हस्तका- उत्तल, हृस्य- हु
 हृस्त- १ प्रोच्छाद, रोहिणी
 हृस्त-> इद्वित्- २ अमित,
 १ अय, गो, तिल xx, हृरित
 (-क) का- वहु हृस्ति वित्त-
 (> हृस्तिशीर्षि- पा) पाय छ,
 १, १६, हृस्त्वा (हित-वा)
 दि- १ अ, √ हा (लागे) अय, अमि,
 अय, २ उद्, नि, परि, प्र प्रतिप्र,
 वि, सद्, सप्र, जह- शर्षम्,
 जहृद्-, जहित-, जितहान-,
 १ हान- हृशि, भयकारण्य,
 सर्व, हानि- १ अ, अर्धार्थ, अय
 दान xx, ह्रास्य, ह्राव (नु)
 ही- ह्रास्य- हीन- १ अ, १ अत्र,
 अत्युक्ता, २ अत्रा, आचार xx,
 हीनकर्मन्- १ अ, हीन वृत्ती-
 १ अ हीन मन्त्र- नवाभ
 प्राशन, हीनातिरिक्त- २ अत्र
 √हा (गौ) अवि, अय, अन्द्,
 अय, अमि, अय, २ उद्, उपाय,
 मि, सद्, हृहान- अय, ह्राय
 हा हं, हा- प्र, हायन-
 १ अ अर्थ, १ एक् xx, ह्रायस्-
 वि, हारक- प्र √ह(परि) द्र,
 हारायण- गौध, हृहारीत-
 १ व, विविध, २ हारीत-
 हार्यमा(शु)णा- √ह (परि) द्र
 हाय-, हाव √हे(परि) द्र
 हायिन्- √हु (परि) द्र
 √हि यामि, परि, प्र, सद्,

हित्य, हि तु, यद्, हि> हि
 √ह > हिकार- १ अ, १ एद्,
 हि, निवृत्त, हिकृत, वा- १ अ,
 सक्त, √हिस > हिस-
 हिसक-, हिसिका-, हिसव-
 हिसन- १ अ, हिसा- १ अ,
 आकोश, उष्णाम्बुस्तान, १ गति,
 गोवलीर, कुर्वल, धन, प्राक्,
 प्राणिन, मरुद्गल न xx,
 हिसिन्- १ अ, हिस, सा- १ अ,
 कुवडाधिन्, हिद्गु- १ लवण
 हित, ता- १ अ, १ अय, आचार्य,
 आत्मन्, आयुष्य, आधमान्त्र,
 चन्य xx, हृिम- जित, पद्,
 हिमवत्- शतद्, हिम अय- पा
 ६, ४, २९, २ हिम-> हिमा-
 शत, हिरण्य- १ अ, २ अन्द्,
 अन्द्, अयन्, १ अय, आय-
 > १, १ कुशा, युद्, गो,
 १ अ, १ हिपद् १ अशा,
 अय xx, हिरण्यनिकापम्, हिर
 षय- १ अ, हु, हिरण्यवर्ण->
 गीय- प्रह, हिरण्यसकल-
 उदरवर्हित, उदरहन्, √ही
 (=दीष्ट) नि, हीही हाहा
 √हु अमि, अय, अयम्, अमि,
 आ, उय, परि, प्र, प्रति, वि, सद्,
 सुहोति- १ अयति, सुहृन्, सुहृत्ती-
 १ अ, सुहृन्-, २ हृव- हृविष्ट-
 अमिहोम, हृवि- अयुवाद्येका-
 वस्य, हृविस्- १ अ, अमिहोम,
 अमिहोम, अ-य xx, हृविष्ट-
 काशी, १ एक्, २ व, १ दृविष्ट,
 विषय, सद्, हृविष्ट निवर्षण-

a) पृ २८८४ अयमपि अनिदय । b) पृ २७७५ यानि सध्यासक्य द । c) ०२५ । d) पृ २७८३ यानि सध्यासक्य द । e) पृ २७८४ यानि सध्यासक्य द । f) पृ पागम । g) पृ २७८८ यानि सध्यासक्येत् द । h) विषय वेप २ २२२२ द । i) वेप २ द । j) = अक्षि विशेष- । k) पृ २७८५ यानि सध्यासक्येत् द । l) अक्षि ३२ । m) पृ २७९४ काव- १ अ->यानि द । n) = हृविष्ट-

विपरीतदर्भास्तरण^०, हविर्भात्-
 १अ^०, हविप् (क >) क-
 १पृ^०, हविःकृत्- आतिप्^०,
 श्रमणीय^०, हविःकृत्- हविष्मत्^०,
 हविष्मत्->हविष्मत्-यौवाय^०,
 १हविःप- १अ^०, १हव्य- रात^०,
 २वीत^०, १ष्टि^०, होतृ^०, *हविः-
 १एक^०, *हुव्- अग्निहोत्र^०, १यज्ञ^०,
 सर्व^०, सुहुत^०, हुत, वा- १अ^०, अग्नि^०,
 अन्व^०, अर्थ^०, तद्^०xx, हुवाश्रन-
 धान्य^०, २शस्त्र^०, हुत^०, हुति, ती-
 पुनद्^०, *हुव, हुवा १अ^०, १हुव-
 मान- १अ^०, *होतवै, होतव्य-
 होम- १अ^०, अग्नि^०, अग्निहोत्र^०,
 अग्नीकरण^०, १अज्ञ^०, अल्पावाक
 वदसा^०xx, होम-(क)- १अ^०, होम-
 काल- प्रादुर्कारण^०, होमस्युक्त-
 १अ^०, *होमा(म अ)भवाधानो(न-उ)
 पस्यात्- अन्वत्^०, ३होमार्थ- १अ^०,
 *होप- १एअ^०, प्राति^०

हुवधै, ह- हति-, हुव, हुय- ✓ब्र
 (परि) द, ह्र- हाहा^०

✓ह अन्व^०, अतु^०, अतुपरि^०, अतुप्र^०,
 अतुव्या^०, अतुसम्^०, अ-नव^०, अन्वा^०,
 अण^०, अणव्या^०, अवा^०, अग्नि^०, अग्नि-
 निद्र^०, अग्निपरि^०, अग्निप्रति^०, अग्निवि^०,
 अग्निविपरि^०, अग्निव्या^०, अग्निस्म^०,
 अन्व^०, अन्वुद्^०, अन्वुदा^०, अन्वुप^०,
 अन्व^०, अन्व^०, उदा^०, उण^०, उप-
 निद्र^०, उप-या^०, उप-व्या^०, उपसम्^०,
 उपसमा^०, उपा^०, उपाति^०, उपाव^०,
 उपोद्^०, उपोदा^०, उरा^०, हुपरि^०,
 नि^०, निद्र^०, परा^०, पार^०, पवा^०, प्र^०,
 प्रति^०, प्रतिपरा^०, प्रतिपरि^०, प्रातवर्षा^०,
 प्रतिवत्^०, प्र-यति^०, प्र-यव^०, प्रत्या^०,

प्रत्युवा^०, वि^०, विपरि^०, व्यति^०, वव^०,
 व्या^०, व्याव^०, व्युद्^०, सम्प्र^०, सम्^०,
 समभि^०, समभि-व्या^०, समा^०, समुद्^०,
 समुदा^०, सम्^०, सम्प्रया^०, जिहोर्षत्-
 *जिहोर्षमाण-, *जिहोर्षित^०,
 *जिहोर्षु^०-, हर, श- अर्थ^०, अर्थ^०,
 क्षेत्रदार^०, तन्त्र^०, तृतीयाश्र^०, दधि
 यार्थ^०, दर्प^०, दाय^०, पश्यत्^०, पासु^०,
 पाप^०, पुरोडाश^०, प्राण^०, १मनस्^०,
 यज्ञभाग^०, यज्ञोचित^०, युक्ति^०,
 राज्य^०, सर्व^०, हरण- १अ^०, अदत्त^०,
 अवसथ^०, २आदान^०xx, हर- १अ^०,
 हरमन्त्र^०, *हरि- १रति^०, नाय^०,
 सर्व^०, हरिव्यात्-, *हर्तवै, *हर्तव्य-
 २हर्त- गो^०, तदुद्गतोभव^०, हर्ष^०,
 *हर्षोत्, हार- अतिमपुरपयत्^०,
 द्यु^०, १उदक^०, उपयमनी^०, धन^०,
 १वलि^०, भार^०, सनी^०, सोम^०, स्तेय^०,
 *हारक- धन^०, धर्मार्थ^०, १वाद^०,
 *हारण-, *हारम्, हारभिक्षा, *हार-
 यिष्यत्-, हारि-, हारिन्- १अ^०,
 १अस्थ^०, क्षीर^०, १जल^०, दीप^०,
 धान्वा^०, निशब्ध^०, पाप^०, २मान^०,
 शन्दर^०, नव^०, शया^०, सभनी^०,
 समिध^०, १सुपर्ण^०, हार्य- सुत^०,
 *हार्थमा (य >)णा-, *हव्-
 १वलि^०, हत- १अ^०, चोर^०, २चोर^०,
 दवन^०, *हवि, ती-, *हव्य, *हव्य-,
 द्विषमाण-, ✓ह(वया) > *हण-
 उद्^०, दग्नि- आगत^०, ✓हणीय >
 *हणीयमान, ना- १अ^०, हृद्-
 १वर^०, हृद्, ललाट^०, सु^०, हादं-
 हृद् सु^०, हृदयेखा- ४अ^०, *हृद्-
 *हृद्- सु^०, हृदय- अम^०, अय-
 र्भन्^०, उच्छ्रव्य^०, उतात^०xx, *हृदय-

भूवा- अगितायुर्भू^०, हृदयस्य-
 वरिह^०, ✓हृप् २उद्^०, प्र^०, सम्^०,
 हृष- १अ^०, श्लोप^०, १वरा^०, १मनु^०,
 रोप^०, ४त^०, *हृषणी- श्रेप^०,
 २हापित- सप्तगुस्तुति^०, *हृषिन्-;
 हृष्ट- कृष्ट^०, विमल^०, *हृष्टे ह^०
 ✓हृष्ट, ल् > *हृडन्- १अ^०, *हृड
 (ळ)न- १देव^०, *हृडमान- १अ^०
 हेति- अस्थ^०, दरे^०, १देव^०
 हेतु- अस्त^०, अस्त^०, अर्थ^०, अन्वार्थहा
 १^०xx, हेतु(क)- प्रत्युपस्थिति^०,
 हेतुत्व- शब्द^०, धृति^०, हेतुमत्-
 २गति^०, हेतु^०, २हेमन्- आहु^०,
 पुरण^०, गोक्षीर^०, हैम- ताप्र^०,
 *हेम पत्र- रूपविषय^०, हेमन्त-
 १श्रीप^०, सु^०, हे ह^०, *हेलिहिसि-
 महत्^०, होतवै ✓हु (परि) द,
 होतु- अग्नि^०, अन्वयु^०, १एक^०,
 उद्गत^०xx, *होतृक- अतुप्रहिक^०,
 होतृ- पशु^०, ४अ^०, *होत्र-क- यज्ञ-
 पार्थ^०, होतृधियव्य- सवस्^०, होतृ-
 पदन- प्रणीता^०, होत्रीय- शाता-
 सुवीय^०, होत्र- *यज्ञात्^० साग्री
 उ, ८, २, आपश्री [०]त्र- अग्नि^०,
 १एकवर्ण^०, पयस्^०, वीति^०, १शुन^०
 होत्रा- चतुर्, दशन्, १पृ^०, सतन्
 होप- ✓हु (परि) द
 ✓हु अण^०, नि^०, *हर्ष-^०, *हृन्म-,
 *हृव्य, हृवाम, ना-
 हृद्- कथा^०, हृद्, १जल^०, पुण्य^०,
 महत्^०, ✓हृस् अति^०, नि^०, निद्र^०,
 प्रति^०, *हृसमा(न)ना-, *हृक्षित-,
 *हृस्व- १अ^०, हृस्व- अर्थ^०, उभय
 वस्^०, दीर्घ^०, नपुणक^०, वयं^०,
 १हृत्^०, हृस्वत्- उपपा^०, उप-

द) वीप १ द । b) पृ २८१० समवेदस्य । c) कर्तार हृत् । d) कर्तार्ये हृत् । e) पृ २८०८
 यनि सख्यायकेत द । f) = हृदय । g) हृत् प्र (पा ४, ३, ०८) । h) पृ २८१४ होवा->यज्ञात् >

सर्जन्, नपुंसकोपसर्जनः; द्वास्-
 कषलः, क्षपाः, वृदिः, √द्वाद्
 निः, निर्ः, समुः; दाद् (यवा.)-
 १अ०, निर्ः, *हाद्य
 √ही>ही- १अ०, अपनतः; हीत-
 १अ०, *√ह्रु(=√ह्रु) विः, हुत-
 १अ०; हुत-मिध- काणयो...एडा
 *होड्- ज्वाः; √ह्लाद् श्वाः, प्रः

द्वाद-; *द्वाहित-; √द्वल् परिः;
 द्वालः- मर्मदुद्; *द्वालम्, *द्वा-
 यर्पाः; √द्वृ च्चपः, उपः, परिः,
 प्रः, विः; *द्वृ-; *द्वृ-;
 *द्वृ-
 √द्वे थत्वा०, अत्, अन्वा०, अभिः,
 अन्वा०, आ०, उदा०, उ१०, उपा०,
 निः, परिः, प्रः, प्रति०, प्रत्वा०, प्रत्यु१०,

प्राभिः, विः, व्या०, समुः, यमाः,
 समुः, १दा०- पृतनाः; *२हयन्-;
 २द२१-; *हाय-; *हायम्, *हुक्यै;
 *हृ- १दे०, मुम्नः; हृत- १अ०,
 १पु०; *हृति- १दे०, पूर्व०, ४०;
 *हृयः; *हृय- १दे०; *हृयमान-;
 *हृय-; *हृयत्-; *हृयन्-; *हृयान-;
 *हृयित्वै, ह्यन्-; *ह्यास्यमान-

इति परिशिष्टम्

a) <√होड्। गौ। इति विद्याधरः (काथी २२, ४, १२) । b) माये वा कर्त्तरि वा कृत ।
 c) वेप १ द. । d) पृ १७४९ h द. । e) कर्त्तरि कृत । f) पृ २७०४, २८१८ यति. वैष्णवभेदतः द. ।
 g) वेप १, १६२८ । द. ।